



तमसो मा ज्योतिर्गमय

SANTINIKETAN
VISWA BHARATI
LIBRARY

2103

V82

Vol. 4, pt 1

87104

शान्तकुटी-वैदिकग्रन्थमाला

तस्यां च शास्त्र्यादिविरुदालङ्कृतेन

विश्वबन्धुना

कर्मिष्ठसंघटकानां लम्बितप्रौढिविशेषाणामुपनिशानां विदुषां सहयोगतश्च

परामर्शकसंघटकानां नानादेशीयानामुपनिशानां

विपश्चिदपश्चिमानां सन्निर्देशतश्च

संपादितायाम् अयम्

दमो ग्रन्थः

होशिआरपुरे

विश्वेश्वरानन्द-वैदिक-शोध-संस्थानेन प्रकाशितः

२०१४ वि०

THE SHANTAKUTI VEDIC SERIES

Edited

*with the co-operation of a Staff Organisation of about thirty
specially Trained Scholars and under the general
guidance of an international
Advisory Board*

By

VISHVA BANDHU, *Shastri, M. A., M.O.L., O.d'A. Fr.*

VOLUME VIII

HOSHARPUR

Published by the V. V. R. Institute

1958

A VEDIC WORD-CONCORDANCE

Being a **universal vocabulary register** of about **500** Vedic works,
with complete textual reference and critical commentary bearing on
phonology, accent, etymo-morphology, grammar, metre,
text-criticism, and ur-Aryan philology

In five Volumes, sub-divided into fifteen Parts

By

VISHVA BANDHU

Director, the Vishveshvaranand Vedic Research Institute and the
D. A.-V. College Research Department, formerly,
Principal, Dayanand Brāhma Mahāvidyālaya.

In collaboration with

BHIM DEV, RAMANAND, AMAR NATH, PITAMBAR DATT
AND MANY OTHER SCHOLARS.

Vol. IV in Four Parts

(Vedāṅga-sūtras)

PART I

अ-ऊ

Pages I-XVIII and 1-760.

HOŚHIARPUR

PUBLISHED BY THE V. V. R. INSTITUTE

वैदिक-पदानुक्रम-कोषः

स च

संहिताब्राह्मणोपनिषद्वेदाङ्गसूत्रवर्गीयोपपञ्चशत[५००]वैदिकग्रन्थस्थ-सकलपदजात-संग्रहस्वरूपः

प्रतिपदप्रतियुक्त-श्रुतिस्थलसर्वस्व-निर्देशैः समवेतश्च यथासंगत-तत्तत्प्रागर्वाग्लक्षण-

विचारसमन्वितटिप्पणैः सनाथितश्च

संभूय पञ्चदशखण्डात्मकैः पञ्चभिर्विभागैर्व्यूढश्च

सन्

दयानन्दब्राह्मणमहाविद्यालयीयाचार्यपदप्रतिष्ठितपूर्वेण, विश्वेश्वरानन्दवैदिकशोधसंस्थानस्य

च दयानन्दमहाविद्यालयीयाऽनुसंधानविभागस्य च संचालकेन

सता

किशकबन्धुना

भीमदेव-रामानन्द-अमरनाथ-पीताम्बरदत्त-

प्रमुखानां बहूनां शास्त्रिणां

सायुज्य-समुपलम्भेन

संपादितः

अयं च तत्र

(वैदाङ्गिकस्य)

चतुःखण्डात्मकस्य ४र्थस्य विभागस्य

१मः खण्डः

अ-ऊ

पृष्ठानि, 1-XVIII च १-७६० च

होशियारपुरे

विश्वेश्वरानन्द-वैदिक-शोध-संस्थानेन प्रकाशितः

२०१४ वि०

(All Rights Reserved)

Printed and Published by Dev Datta Shastri,
at the V. V. R. I. Press, Hoshiarpur.
First edition, first issue, 1958. Quality I, 375 Copies.
Price Rs. 40/-.

(अधिकार-सर्वस्व सुरक्षितम्)

होशियारपुरे वि. वै. शो. सं. मुद्रागृहे

देवदत्तशास्त्रिणा मुद्रापितः प्रकाशितश्च ।

प्रथमं संस्करणम्, प्रथमः प्रकाशः, २०१४ वि. । १मा कोटिः, ३७५ प्रतिकृतयः ।
मूल्यम् ४०) रु. ।



Prepared and published under the patronage of the Governments of the Indian Union and the States of Panjab, Jammu-Kashmir, Himachal, Uttar Pradesh, Bihar, Assam, Orissa, Madhya Pradesh, Bombay, Mysore, Kerala and Madras, the former Princely States of Hyderabad, Travancore, Baroda, Indore, Kolhapur, Sangli, Patiala, Nabha, Jodhpur, Bikaner, Idar, Alwar, Udaipur, Shahpura, Sirmur and Keonthal, the former Princely Estates of Awagarh and Vijayanagaram, the Universities of Panjab, Poona, Andhra and Calcutta and the Trusts and Charities of Swami Vishveshvaranand, Shri Vishva Bandhu, Shri Moolchand Kharaitiram, D.B. Krishna Kishore, Shri Dhani Ram Bhalla, Shri Jai Dayal Dalmia and other donors.

FOREWORD.

In 1931, we compiled a Word Index to Kātyāyana-śrautasūtra. That is how work was started on this Volume, designed to encompass the entire sub-Vedic Aṅga and Upāṅga literature, consisting of liturgical aphorisms and their subsidiary redactions, of ancient treatises on phonetics, grammar, etymology, prosody, mathematics, astronomy, astrology, theology, mythology, dialectics, interpretative methodology and of textual inventories and other auxiliary manuals of various kinds. By the beginning of 1942, as many as 115 texts on which this Volume was eventually based and which are being named here in the sequel in their alphabetical order, in full as well as in abbreviation, had been traced out and collected in their available editions and, successively, passed through the different stages of our pre-editorial compilation technique, namely, (1) the separate single-text alphabetical word-indexing, (2) the multi-text group-wise alphabetical arrangement and (3) the all-text consolidated alphabetical arrangement. This vast vocabulary, noted, form-wise, with corresponding text-references on 16,00,000 cards of $4\frac{1}{4}'' \times 8\frac{1}{8}''$ size comprised about one-third of the card-corpus, prepared for the whole Concordance. During the past sixteen years, barring the period of dislocation and its after-effects caused by the vivisection of Panjab in 1947, this Volume, alongside of the other ones, dealing with the Samhitā, Brāhmaṇa and Upaniṣad vocabularies, has been undergoing the multi-grade editorial treatment. Its printing was started in November, 1956.

The 115 basic texts of this Volume, arranged, when pertaining to different Vedas, in the order of R̥gveda, Śukla-Yajurveda, Kṛṣṇa-Yajurveda, Sāmaveda and Atharvaveda, fall under 17 categories which, along with the number of texts included in each of them, are as follows :—

I. Śrauta-sūtras (22) ; II. Āpastamba-mantrapāṭha and Suparṇā-dhyāya (2) ; III. Gṛhya-sūtras (21) ; IV. Piṭṛmedha-sūtras (3) ; V. Pariśiṣṭas of Atharvaveda (3) ; VI. Dharma-sūtras (11) ; VII. Śulba-sūtras (4) ; VIII. Anukramaṇis (9) ; IX. Nighaṅtus (2) ; X. Yaska's Nirukta (1) ; XI. Prātiśākyas (7) ; XII. Śikṣās (10) ;

XIII. Paṇinīya-vyākaraṇa—(a) Aṣṭādhyāyī-sūtras (1); (b) Dhātu-pāṭha (1), (c) Vārtikas and Iṣṭis (4); (d) Gaṇa-pāṭhas of Sūtras and Vārtikas (2); (e) Uṇādi-sūtraś (5); (f) Phiṭ-sūtras (1); XIV. Chandaḥ-sūtras (2); XV. Jyotiṣas (2); XVI. Mimāṃsā-sūtra (1); XVII. Samarāṅgāṇa-sūtradhārā (1).

From the general point of view as well as in respect of the treatment of verbs, declinables and indeclinables and, of the accentual and referential accompaniment thereof, the same method has been followed in this Volume as in the Volume I (cf. Intro. IV) and the Volume III (cf. Intro. II) and, therefore, need not be described here again. As in the previous Volumes, in this Volume, likewise, all available Sanskrit commentators of yore as well as the modern authors who have translated or commented upon any of the connected texts, have been fully laid under contribution in the preparation of the Critical Apparatus. A large number of the footnotes here in making cross-reference to the Volume I (Samhitās) indicate additional text-variants which not having been given in Bloomfield's Concordance, could not be noted in the Critical Apparatus to that Volume.

The following signs and symbols have been employed in this Volume in addition to the rest which it has in common with the Volumes I and III :—

1. † indicates that the word in question comes from some Vedic Mantra text which may or may not be traceable at present.
2. § indicates that the textual reference to which it is attached has some value for the study of etymology.
3. : placed in the midst of referential figures, indicates that the preceding mono-figure or multi-figure set gives either the page-number or the traditional division number as the case may be, and that the following single figure gives the line-number therein.
4. ** at the end of a textual reference indicates that more textual references, though available, have been dispensed with, being of no vital importance.

5. ; placed after a text-name indicates that more texts, though available on the point, need not be cited, being of no vital importance
6. ° placed either on the right side or on the left side or on both sides of a partially indicated word-form makes that word-form understood as in full.

It gives me great pleasure in expressing my deep gratitude to my academic colleagues and the printing and administrative staff of the Institute, on the one hand, and our financial supporters, on the other, for having collaborated most effectively in and towards the production and publication of this work.

V. V. R. INSTITUTE,
SADHU ASHRAM,
HOSHIARPUR.
March 15, 1958.

VISHVA BANDHU

प्राक्थनम्

अथ वैदिकपदानुक्रमकोषे वैदिकाङ्गोपाङ्गीयानां सर्वेषां पदानामत्र संग्रहणाद् वैदाङ्गिक इति ख्याप्यमान-
श्चतुर्थो नामाऽयं विभागः प्रकम्यते । १९३१ अब्दे संकलितया सत्या कात्यायनश्रौतसूत्रीयपदसूच्या तावदस्य सर्वप्रथम
उपक्रमोऽभवत् । १९४२ अब्दावधिकेन च कालेनैतदाधारभूतानां सतामुपरिष्ठाचेहाऽकारादिवर्णानुक्रमेण प्रातिस्विक-
तत्त्वामसंक्षेपनिर्देशसाहचर्येण प्रत्युद्दिश्यमानानां ११५ संख्याकानां तत्तत्संस्करणलब्धप्रकाशानां ग्रन्थानां यत्र तत्रा-
न्वेषणपुरस्सरं यावदुपलभ्यं संग्रहः समपद्यत । तस्मिन्नेवाऽन्तर एनानधिष्ठस्य चरमसंस्करणौभयिकभूतं प्रक्रियाविशेष-
करणीयं च (१) प्रत्येकग्रन्थपृथग्गणानुक्रान्तपदसूच्यात्मकं, (२) यथावगव्यवस्थापितानेकग्रन्थवर्णानुक्रमणात्मकं, (३)
समस्तग्रन्थासाधारणसंपिण्डितवर्णानुक्रमणात्मकं च त्रिविधं कार्यजातमपि पूर्तिमगच्छत् । सुप्तिङन्त्यतररूपविवेकपूर्वकं
४३ "X३३" मितानां १६,००,००० पत्रकाणामुपरि प्रतिरूपं प्रातिस्विकग्रन्थस्थलनिर्देशसाहचर्येण यथावदङ्कितः संश्यासौ
महान् पद-संघातः वैदिकपदानुक्रमकोषस्य कृतेऽङ्कितस्य सतः समग्रस्य पदरूपराशेस्तृतीयशमानः समजायत । तदूर्ध्वं
१९४७ अब्दीयपञ्चापप्रदेशविपाटनजनितजनताविष्ठापनानुपतिताऽव्यवस्थाऽन्तरालवर्जं नान्तरीयकतया विगतेष्वेषु षोडशसु
वर्षेषु संहिताब्राह्मणोपनिषद् विभागवत् प्रकृतो विभागोऽप्यनेकभूमिकसंस्करणं सततमवापत् । विभागस्यास्य मुद्रापणं च
१९५६ अब्दस्य नवम्बरमासतः प्रवृत्तमभूत् ।

अस्य विभागस्याऽऽधारग्रन्थास्तत्तद्वेदाभिसंबन्धविभिन्नाः सन्त ऋग्वेद-शुक्लयजुर्वेद-कृष्णयजुर्वेद-सामवेदा-
ऽथर्ववेदक्रमेण संकलने व्यवस्थिता द्रष्टव्याः । तदीया ११५ संख्या चोत्तरोक्तप्रकारतः १७ वर्गैः पूर्यमाणा द्रष्टव्या—

१. श्रौतसूत्राणि [२२]; २. आपस्तम्बमन्त्रपाठ-सुपर्णाध्यायौ [२]; ३. गृह्यसूत्राणि [२१];
४. पितृमेधसूत्राणि [३]; ५. अथर्व-परिशिष्टानि [३]; ६. धर्मसूत्राणि [११], ७. शुल्बसूत्राणि [४];
८. अनुक्रमण्यः [९]; ९. निघण्टू [२]; १०. (यास्क्रीयं) निरुक्तम् [१]; ११. प्रातिशाख्यानि [७],
१२. शिक्षाः [१०]; १३. पाणिनीये व्याकरणे (क) अष्टाध्यायी (सूत्राणि) [१]; (ख) धातुपाठः [१];
(ग) वार्तिकानि, इष्टयश्च [४]; (घ) गणपाठौ (सूत्रवार्तिकयोः) [२]; (ङ) उणादिसूत्राणि [४], (च) फिट्सूत्रम्
[१]; १४. छन्दसी [२]; १५. ज्योतिषे [२]; १६. मीमांसासूत्रम् [१]; १७. समराङ्गण-सूत्रधारः [१] ।

सामान्यदृष्ट्या च सुप्तिङव्ययादीनां निर्देशविषये च तदीयस्वरस्थलादिकस्य सङ्केतविषये च विशेषतो या
नाम प्रक्रिया प्रथमे च विभागे (भूमिका ४ द्र.) तृतीये च विभागे (भूमिका २ द्र.) अनुसृतचरी, सैवहाप्यन्वसारीति कृत्वा
पुनरिहापि व्यर्थपिष्टपेषणाव्यभिचारिणि तदुपवर्णने नाऽऽदरः ।

पूर्वप्रकटितविभागान्तरवदिहापि यावदुपलभ्यानां प्राग्वर्गागभियुक्तानां भाष्यटीकानुवादादिटिप्पणाद्यनेकविध-
प्रवृत्तानां सतीनां कृतीनां टिप्पणभागप्रपूर्यर्थं समुपबोगे प्रयत्नविशेषः कृत इति किमु वक्तव्यमिव भवति । बहुष्वत्रत्येषु
टिप्पणेषु संहिताविभागस्य प्रपूर्यर्थमविदितचराः पाठभेदा अपि संकलिता भवन्ति ।

प्रथमतृतीयोभयविभागोपवर्णितसंकेतव्यतिरेकेण तावद् ये नामाऽपरे कतिचित् संकेता इह प्रायुञ्जत, त
इमे भवन्ति—

१. † एवविधचिह्नमृत पदमद्यतने पृथगुपलभ्यानुपलभ्यान्तरप्रकारकात् सतः कुतश्चिद् वैदिकमन्त्रग्रन्थादागतं भवेत् ।

२. ॐ एवंविधं चिह्नितं स्थलं निर्वचनोपयोगाय कल्पताम् ।
३. : इति चिह्नं स्थलसंख्यामध्यगतं सदात्मनः पूर्ववर्तिन्या एकाङ्कात्मिकायाः सत्याः पृष्ठसंकेतिन्याः खण्डसंकेतिन्या वाऽनेकाङ्कात्मिकायाः सत्याश्च संप्रदायप्रसिद्धाऽवान्तरविभागसंकेतिन्याः संख्यायाः सकाशाद् उत्तरवर्तिन्या एकाङ्कात्मिकायाः सत्याः पङ्क्तिसंकेतिन्याः संख्याया विवेकं कारयेत् ।
४. ×× इति चिह्नं स्थलसंख्यासंकेतोत्तरतो निवेशितं सदुपलभ्यानामपि सतां स्थलान्तराणामुपयोगविशेषाभावादिहाऽनुद्धरणं सूचयेत् ।
५. ; इति चिह्नं ग्रन्थनामसंकेतोत्तरतो निवेशितं सदुपलभ्यानामपि सतां प्राकरणिकग्रन्थान्तराणामुपयोगविशेषाभावादिहानुद्धरणं सूचयेत् ।
६. ° इति चिह्नमादितो वाऽन्ततो वाऽऽद्यन्तोभयतो वा खण्डयित्वाऽङ्कितस्य सतः पदस्य बामतो वा दक्षिणतो वा मूर्धनि निवेशितं सत्तस्य यथाप्राप्तपूरणीयतां सूचयेत् ।

अस्य ग्रन्थस्य निर्माणं च मुद्रणप्रकाशनं चोद्दिश्यातीवयुक्त्याऽनेकप्रस्थानया च विधया प्रशस्यतमं सहयोगं कृतवतः सांस्थानिकान् सारस्वत-सामान्य-मुद्रणविभागत्रये लब्धतत्तदधिकारान् कर्मिष्ठांश्च धनद्वारकं महार्घं पोषणं कृतवत-स्तौस्तान् संरक्षकांश्च सर्वान् प्रति संप्रत्यात्मनो हार्दिकमाभारं प्रख्यापयतो मे मोमुद्यते चेत् इति निवेदयमानो वैदिक-स्वाध्यायश्रीवृद्धावुयुक्तानामभियुक्तानां सतां सल्लाभाय संचरणीयमनन्तमध्वानमिमं वैदाङ्गिकं विभागं प्रस्थापयेयमयमहम् ,

होशियारपुरे साध्वाश्रमे
 विश्वेश्वरानन्दवेदिकशोधसंस्थाने }
 २ चैत्रे, २०१४ अब्दे वैक्रमे

विश्वबन्धुः

संक्षेपाः (Abbreviations)

(क) आधारग्रन्थीयाः^a (of Basic Texts, their Editions & Commentaries)

- अअ.^b** = अथर्ववेदीय-बृहत्सर्वानुक्रमणिका-, संपा. रामगोपालशास्त्रिन्-, दमप्र., लाहौर, १९२२ ई. ।
- अप.^c** = अथर्व-परिशिष्ट-, संपा. जी. एम्. बोलिंग (Bolling, G. M.) + जे. फान नेगेलाइन (Negelein, J. Von), लाइप्सिग् (Leipzig), १९०९ ई. ।
- अपं.** = अथर्ववेदीय-पञ्चपटलिका-, संपा. भगवद्दत्त-, दमप्र., लाहौर, १९२० ई. ।
- अप्रा.** = अथर्व-प्रातिशाख्य-, संपा. इंग्लिश-अनुवाद-समेत-, सूर्यकान्त-, MSPS., लाहौर, १९३९ ई. ।
- अप्राय.** = अथर्व-प्रायश्चित्त-, संपा. जे. फान, नेगेलाइन (Negelein, J. Von), JAOS., १९१३ ई. ।
- अशां.** = अथर्व-शान्तिकल्प-, संपा. इंग्लिश-अनुवाद-समेत-, जी. एम्. बोलिंग (Bolling, G.M.), TAPA., १९०४ ई. ।
- आगृ.** = आश्वलायन-गृह्यसूत्र-, संपा. ए. एफ्. स्टेन्ज़लर (Stenzler, A. F.), लाइप्सिग् (Leipzig), १८६४ ई. ।
- संपा. गार्ग्यनारायणवृत्ति-युत-, जीवानन्दविद्यासागर-, कलिकाता, १८९३ ई. ।
- संपा. हरदत्ताचार्यवृत्ति-समेत-, त. गणपतिशास्त्रिन्-, अनन्तशयन-संस्कृतग्रन्थावलि-, त्रिवेन्द्रम, १९२३ ई. ।
- संपा. नारायणवृत्ति-गृह्यपरिशिष्ट-भट्टकुमारिलकारिका-सहित-, वे. शां. सं. रानाडे-, आन., पूना, १९३६ ई. ।
- इंग्लिश-अनुवाद-, एच्. ओल्डनबर्ग (Oldenberg, H.), SBE, आक्सफोर्ड (Oxford), १८८६ ई. ।
- आग्निगृ.** = आग्निवेश्य-गृह्यसूत्र-, संपा. एल्. ए. रविवर्मन्-, त्रिवेन्द्रम-संस्कृतग्रन्थमाला-, त्रिवेन्द्रम, १९४० ई. ।
- आज्यो.** = अथर्वण-ज्योतिष-, संपा. भगवद्दत्त-, पञ्चनदीय-संस्कृत-प्राकृतग्रन्थमाला-, लाहौर, १९२४ ई. ।
- आपगृ.** = आपस्तम्ब-गृह्यसूत्र-, संपा. हरदत्त-सुदर्शनाचार्य-वृत्ति-युत-, चिन्नस्वामिन्-, चौधं., बनारस, १९२८ ई. ।
- संपा. एम्. विंटेर्निट्ज़ (Winternitz, M.), वीयना (Vienna), १८८७ ई. ।
- संपा. सुदर्शनाचार्यभाष्य-युत-, ए. महादेवशास्त्रिन्-, GOLP., मैसूर, १८९३ ई. ।
- इंग्लिश-अनुवाद-, एच्. ओल्डनबर्ग (Oldenberg, H.), SBE, आक्सफोर्ड (Oxford), १८९२ ई. ।
- आपघ.^d** = आपस्तम्ब-धर्मसूत्र-, संपा. हरदत्तभाष्य-समेत-, ए. महादेवशास्त्रिन्-, GOLP., मैसूर, १८९८ ई. ।
- इंग्लिश-अनुवाद-, जी. व्यूह्लर (Bühler, G.), SBE., आक्सफोर्ड (Oxford), १८७९ ई. ।

(a) यद्-यत् संस्करणं प्राधान्येनेहोपशुक्तं तत्तत्संस्करण-संकेतः प्रकृतायां तालिकायां प्रथमे स्थाने निहितः
 द्र. । (b) कारण-सूक्त-संख्याद्वयेन संकेतः । कोष्ठान्तर्गतया संख्यया पर्याय-संकेतः । (c) परिशिष्टान्तर्गतयोः
 b, c इत्येतयोरुपविभागयोर् मूर्धन्यस्ताभ्यां २, ३ इति संख्याभ्यां संकेतः । (d) प्रश्न-खण्ड-सूत्र-संख्यात्रयेण संकेतः ।

- आपमं.** = आपस्तम्ब-मन्त्रपाठ-, संपा. एम्. विंटेर्निट्ज़ (Winternitz, M.), आक्सफोर्ड (Oxford), १८९७ ई. ।
- आपशु.^a** = आपस्तम्ब-शुल्बसूत्र-, संपा. कपर्दि-करविन्द-सुन्दरराज-व्याख्या-समेत^d, श्रीनिवासाचार्य-, GOLP., मैसूर, १९३१ ई. ।
- आपश्रौ.** = आपस्तम्ब-श्रौतसूत्र-, संपा. हद्रदत्तभाष्य-युत-, आर्. गार्बे (Garbe, R.), BI., कलिकाता, १८८२ ई. ।
 ——— संपा. धूर्तस्वामिभाष्य-रामाग्निचिद्रुत्ति-समेत- [१-५प्रश्नाः], नरसिंहाचार्य-, GOLP., मैसूर, १९४४ ई. ।
 ——— संपा. धूर्तस्वामिभाष्य-समेत- [१-७प्रश्नाः], चिन्नस्वामिशस्त्रिन्ट, Oriental Institute, बड़ोदा, १९५५ई-
 ——— संपा. कपर्दि-हरदत्तभाष्य-समेत- [२४, १-४], परिभाषा-सूत्र-, ए. महादेवशास्त्रिन्ट, GOLP., मैसूर, १८९३ ई. ।
 ——— जर्मन-अनुवाद-, विलेम कैलण्ड (Caland, W.), ग्योटिंगन (Göttingen), १९२१ ई.,
 आगस्टर्डम (Amsterdam), १९२४, १९२८ ई. ।
- आशि.** = आपिशलि-शिक्षा-, संपा. रघुवीर-, JVS., लाहौर ।
- आश्रौ.^b** = आश्वलायन-श्रौतसूत्र-, संपा. गार्ग्यनारायणवृत्ति-युत-, रामनारायण-, BI., कलिकाता, १८७४ ई. ।
 ——— संपा. गार्ग्यनारायणवृत्ति-समेत-, गणेशशास्त्रिन्ट, आन., पूना, १९१७ ई. ।
 ——— संपा. मिद्धान्तिभाष्य-समेत- [१३ध्या.], मङ्गलदेवशास्त्रिन्ट, सरस्वती-भवन-, बनारस, १९३८ ई. ।
- उनिस्सू.** = उपनिदान-सूत्र-, संपा. मङ्गलदेवशास्त्रिन्ट, सरस्वती-भवन-, बनारस, १९३१ ई. ।
- उस्सू.** = उपलेख-सूत्र-, संपा. सत्यव्रतसामर्थ्यामन्ट, कलिकाता, १९५१ वि. ।
 ——— संपा. लैटिन-अनुवाद-युत-, जि. पर्टेश (Pertsch, G.), बेरोलिनी (Berolini), १८५४ ई. ।
- ऋअ.^c** = ऋग्वेदानुक्रमणी-, संपा. पड्डगुरुशिष्यभाष्य-समेता-, ए. ए. मैकडानल (Macdonell, A. A.), आक्स-
 फोर्ड (Oxford), १८८६ ई. ।
- ऋत.** = ऋक्तन्त्र-, संपा. ए. सी. बर्नल (Burnell, A. C.), मैङ्गलोर, १८७९ ई. ।
 ——— संपा. सूर्यकान्त-, MSPS., लाहौर, १९३३ ई. ।
- ऋप्रा.** = ऋग्वेद-प्रातिशाख्य-, संपा. उद्वटभाष्य-समेत-, मङ्गलदेवशास्त्रिन्ट, इलाहाबाद, १९३१ ई. ।
 ——— संपा. उद्वटभाष्य-समेत-, युगलकिशोरशर्मन्ट, BSS., बनारस, १८९४ ई. ।
 ——— संपा. जर्मन-अनुवाद-युत-, मैक्स म्यूलर (Müller, Max), लाइप्सिग् (Leipzig), १८६९ ई. ।
 ——— इंग्लिश-अनुवाद-, मङ्गलदेवशास्त्रिन्ट, पञ्चनदीय-प्राच्यग्रन्थमाला-, लाहौर, १९३७ ई. ।
- ऋप्र.** = कर्मप्रदीप-, [१प्रपा.] संपा. नारायणोपाध्यायकृत-परिशिष्टप्रकाश + स्वकीयप्रभा-व्याख्या-समेत-,
 चन्द्रकान्त-, BI., कलिकाता, १९०९, १९२३ ई. ।
 ——— [१प्रपा.] संपा. जर्मन-अनुवाद-समेत-, एफ्. श्राडर (Schrader, F.), हाले (Halle), १८८९ ई. ।
 ——— [२प्रपा.] संपा. जर्मन-अनुवाद-समेत-, ए. एफ्. स्टैल होल्स्टाइन (Stäel-Holstein, A.F.), लाइप्सिग्
 (Leipzig), १९०० ई. ।
 ——— [३प्रपा.] संपा. धर्मशास्त्रसंग्रह-, जीवनानन्दविद्यासंसार-, कलिकाता, १८७६ ई. ।

(a) द्वाभ्यां संख्याभ्यां संकेतः । प्रथमा तुवात् समाकलितपटलत्रयान्तर्गतखण्डान् आह । अथ द्वितीया
 भाष्यकारविभक्तानि सूत्राण्युवाह । (b) पूर्वोत्तरभागयोरध्यायाः समाकलितेन द्वादशावधिकेन संख्याक्रमेण संकेतिताः द्व. ।
 (c) स्थूलमुद्रिताः १, २, ३, ४, इत्येतेऽङ्काः यत्र. तत्तत्स्थलीयानां परिभाषाणाम् ऋष्यादिवर्णनानाम् अनुवाक-संख्यानां
 छन्दः-संख्यानां च संकेताः द्व. ।

- कागृ** = काठक-गृह्यसूत्र-, संपा. देवपाल-आदित्यदर्शन-ब्राह्मणश्ल-व्याख्या-समेत-, विलेम कैलण्ड (Caland, W.), दमप्र., लाहौर, १९२५ ई. ।
- कागृउ.^a** = काठकगृह्योद्धरण-, संपा. काठकसंकलन-, सूर्यकान्त-, MSPS., लाहौर, १९४३ ई. ।
- काठश्रौ.** = काठकश्रौतसूत्र-, संपा. वसिष्ठ-, ओरिएंटलकालेज-पत्रिका-, लाहौर, अगस्त १९२८ ई. ।
- काध.^a** = काश्यप-धर्मसूत्र-, संपा. ति. रा. चिन्तामणि-, JOR., मद्रास, १९३९ ई. ।
- काशु.** = कात्यायन-शुल्बसूत्र-, संपा. स्वकीयवृत्ति-युत-, विद्याधरशर्मन्-, अच्यु., काशी, १९८५ वि. ।
 ——— संपा. काश्रौ. अन्तिमभाग-, कर्कचार्यभाष्य-समेत-, मदनमोहन-, चौसं., बनारस, १९०४ ई. ।
- काश्रौ.** = कात्यायन-श्रौतसूत्र-, संपा. स्वकीयवृत्ति-युत-, विद्याधरशर्मन्-, अच्यु., काशी, १९२८ ई. ।
 ——— संपा. देवयाज्ञिकपद्धति-युत-, विद्याधरशर्मन्-, चौसं., काशी, १९३६ ई. ।
 ——— संपा. कर्कचार्यभाष्य-युत-, मदनमोहन-, चौसं., बनारस, १९०३ ई. ।
 ——— संपा. कर्क-याज्ञिकदेवभाष्यसार-समेत-, ए. वेबर (Weber, A.), बर्लिन (Berlin), १८५९ ई. ।
- काश्रौसं.^a** = काठकश्रौतसंकलन-, संपा. सूर्यकान्त-, MSPS., लाहौर, १९४३ ई. ।
- कौगृ.** = कौषीतकि-गृह्यसूत्र-, संपा. भवत्रातभाष्य-समेत-, ति. रा. चिन्तामणि-, MUS., मद्रास, १९४४ ई. ।
- कौशि.** = कौहलि-शिक्षा-, संपा. साधुराम-, JVS., लाहौर ।
- कौसू.** = कौशिक-सूत्र-, संपा. दारिल-केशव-भाष्यसारोपेत-, एम्. ब्लूमफील्ड (Bloomfield, M.), JAOS., १८९० ई. ।
- क्षुसू.** = क्षुद्र-सूत्र-, आर्षेयकल्पोपहित-, संपा. विलेम कैलण्ड (Caland, W.), लाइप्सिग् (Leipzig)- १९०८, ई. ।
 ——— संपा. हिन्दी-अनुवाद-समेत-, राजाराम-, आर्षेय-स्थावलि-, लाहौर, १९२१ ई. ।
- गो.** = गोनामिक-, संपा. रघुवीर-, JVS., लाहौर, १९३४ ई. ।
- गोगृ.** = गोभिल-गृह्यसूत्र-, संपा. भट्टनारायणभाष्य-युत-, चिन्तामणिभट्टाचार्य-, कलिकाता-संस्कृतग्रन्थमाला-, कलिकाता, १९३६ ई. ।
 ——— संपा. सत्यव्रतसामश्रमिभाष्य-हिन्दी-अनुवाद-समेत-, उदयनारायणसिंह-, मुजफ्फरपुर-, १९०६ ई. ।
 ——— इंग्लिश-अनुवाद-, एच्. ओल्डनबर्ग (Oldenberg, H.), SBE., आक्सफोर्ड (Oxford)- १८९२ ई. ।
- गौघ.** = गौतम-धर्मसूत्र-, संपा. मस्करिभाष्य-समेत-, एल्. श्रीनिवासाचार्य-, GOLS., मैसूर, १९१७ ई. ।
 ——— संपा. ए. एफ्. स्टेन्ज़लर (Stenzler, A F), लंदन (London), १८७६ ई. ।
 ——— इंग्लिश-अनुवाद-, जी. ब्यूहलर (Bühler, G.), SBE., आक्सफोर्ड (Oxford), १८७९ ई. ।
- गौपि.** = गौतम-पितृमेघसूत्र-, संपा. विलेम कैलण्ड (Caland, W.), लाइप्सिग् (Leipzig), १८९६ ई. ।
- चव्यू.** = चरण-व्यूह-, संपा. वसिष्ठ-, ओरिएंटलकालेज-पत्रिका-, लाहौर, नवम्बर १९३२ ई. ।
- चाअ.^b** = चारायणीयमन्त्रार्षानुक्रमणिका-, संपा. विश्वबन्धुशास्त्रिन्-, दमप्र., लाहौर, १९३५ ई. ।
- जैगृ.** = जैमिनीय-गृह्यसूत्र-, संपा. श्रीनिवासाध्वरीभाष्यसारोपेत-, इंग्लिश-अनुवाद-समेत-, विलेम कैलण्ड (Caland, W.), पञ्चनदीय-संस्कृत-प्राकृतग्रन्थमाला-, लाहौर, १९२२ ई. ।

(a) पृष्ठ-पङ्क्ति-संख्याद्वयेन संकेतः । (b) स्थानक-पङ्क्ति-संख्याद्वयेन संकेतः । अनिर्णतस्थानकमेकं ३० संख्यायां संकेतितं द्र. ।

- पाग.** = पाणिनीय-गणपाठ- (भाण्डा. पाका. पासि. BPG.) ।
- पागम.** = पाणिनीये गणरत्नमहोदधि-, वर्धमानकविकृत-, संपा. भीमसेन-, प्रयाग, १९५० वि. ।
- पागवा.** = पाणिनीये गणपाठ-वार्तिक- (भाण्डा. पाका. पासि.) ।
- पागृ.** = पारस्कर-गृह्यसूत्र-, संपा. कर्क-नादाधर-जयराम-हरिहर-विद्वनाथ-भाष्य-युत-, म. ग. बाके., मुंबई, १९१७ ई. ।
- संपा. हिन्दी-अनुवाद-समेत-, राजाराम-, लाहौर, १८९९ ई. ।
- संपा. हरिहरभाष्य-समेत-, लाधाराम-, मुंबई, १९४६ वि. ।
- इंग्लिश-अनुवाद-, एच्. ओल्डनबर्ग (Oldenberg, H.), SBE., आक्सफोर्ड (Oxford), १८८६ ई. ।
- पाधा.** = पाणिनीय-धातुपाठ- (भाण्डा., पासि., BPG.) ।
- पापवा.** = पाणिनीयमहाभाष्ये पस्पशाह्निक-वार्तिक- (भाण्डा., पाम.) ।
- संपा. एफ्. कीलहोर्न (Kielhorn, F.), मुंबई, १८९२ ई. ।
- पाप्रवा** = पाणिनीयमहाभाष्ये प्रत्याहारवार्तिक-, (भाण्डा., पाम.) संपा. एफ्. कीलहोर्न (Kielhorn, F.), मुंबई, १८९२ ई. ।
- पावा.** = पाणिनीय-वार्तिक- (भाण्डा., पाका., पाम.) ।
- पावाग.** = पाणिनीयवार्तिक-गण-पाठ- (भाण्डा., पाका., पासि.) ।
- पाशि.** = पाणिनीय-शिक्षा-, संपा. इंग्लिश-अनुवाद-समता-, मनोमोहनधोष-, कलिकाताविश्वविद्यालय-, कलिकाता, १९३८ ई. ।
- पासि.** = पाणिनीये सिद्धान्तकौमुदी-, संपा. वासुदेव-लक्ष्मणशास्त्रिन्-, निर्णयमागरप्रेस, मुंबई, १९२४ ई. ।
- संपा. तत्त्वबोधिनी-बालमनोरमा-शेखरोपिता-, गुरुप्रसादशास्त्रिन्-, काशी, १९९७ वि. ।
- पि** = पिङ्गल-सूत्र-, संपा. हलायुधभाष्य-युत-, जीमानन्दविद्यासागर-, कलिकाता, १८९२ ई. ।
- फि.^a** = फिट्-सूत्र- (पासि.) ।
- चृदे.** = बृहद्देवतानुक्रमणी-, संपा. इंग्लिश-अनुवाद-समेत-, ए. ए. मैकडानल (Macdonell, A. A.), Harvard Oriental Series., कैम्ब्रिज, मसैचुसेट्स (Cambridge, Mussechusets), १९०४ ई. ।
- बैगृ.^b** = बैजवाप-गृह्यसूत्र-, संपा. भगवद्दत्त-, POC., १९२८ ई. ।
- बौगृ.** = बौधायन-गृह्यसूत्र-, संपा. एल्. श्रीनिवासाचार्य-, GOLS., मैसूर, १९०४ ई. ।
- संपा. आर्. शामशास्त्रिन्- ” ” ” १९२० ई. ।
- बौध.^c** = बौधायन-धर्मसूत्र-, संपा. गोविन्दस्वामिविवरण-समेत-, एल्. श्रीनिवासाचार्य-, GOLS, मैसूर, १९०७ ई. ।
- संपा. चिन्नस्वामिन्-, चौमं., बनारस, १८३४ ई. ।
- संपा. ई. हुल्श्च (Hultsch, E.), लाइप्सिग् (Leipzig), १८८४ ई. ।
- इंग्लिश-अनुवाद-, जी. व्युह्लर (Bühler, G.), आक्सफोर्ड (Oxford), SBE., १८८२ ई. ।
- बौपि.^d** = बौधायन-पितृभेधसूत्र-, [१ प्रपा.] संपा. विलेम कैलरड (Caland, W.), लाइप्सिग् (Leipzig), १८९६ ई. ।
- [२, ३ प्र.] संपा. एल्. श्रीनिवासाचार्य-, GOLS, मैसूर, १९०७ ई. ।
- ” ” सी. एच्. रआबे (Raabe, C. H.), लाइडन (Leiden), १९११ ई. ।
- बौशु.^e** = बौधायन शुल्बसूत्र-, संपा. विलेम कैलरड (Caland, W.), BI., कलिकाता, १९१३ ई. ।
- मूको. (द्वारिकानाथयज्वभाष्य-समेत-) ।

(a) समाकलितया पादान्तर्गतसूत्रसंख्यया संकेतः । (b) पृष्ठपङ्क्ति-संख्याद्वयेन संकेतः । (c) प्रश्न-अध्याय-सूत्र-संख्यात्रयेण संकेतः । (d) प्रथमे प्रश्ने प्रश्न-खण्ड-पङ्क्ति-संख्यात्रिकेण, द्वितीये तृतीये च प्रश्न-खण्ड-सूत्र-संख्यात्रिकेण संकेतः । (e) = बौधौ. ३०तमः प्रश्नः, स च खण्ड-पङ्क्ति-संख्याद्वयेन संकेतितः ।

- बौध्मी.** = बौधायन-श्रौतसूत्र-, संपा. विलेम कैलण्ड (Caland, W.), BI, कलिकाता, १९०४, १९०७, १९१३ ई.।
 ——— मूको. (भवत्रातभाष्य-युत-)
- बौध्मीप्र.** = बौधायन-श्रौतप्रवर-, संपा. विलेम कैलण्ड (Caland, W.), BI, कलिकाता, १९१३ ई.।
- भागू.** = भारद्वाज-गृह्यसूत्र-, संपा. एच्. जे. डब्ल्यू. सालोमोंस (Salomons, H. J. W.), लाइडन (Leyden) १९१३ ई.।
- भाण्डा.** = पाणिनीयसूत्रपाठ-तत्परिशिष्टग्रन्थ-, संपा. श्रीधरशास्त्रिन्-सिद्धेश्वरशास्त्रिन्-, BORI., पूना, १९३५ ई.।
- भाशि.** = भारद्वाज-शिक्षा-, संपा. नागेश्वरवृत्ति-समेता-, रामचन्द्र-मुदर्शन अग्र्यर-, BORI., पूना, १९३८ ई.।
- भाश्री.** = भारद्वाज-श्रौतसूत्र- (अपूर्णा-), संपा. रघुवीर-, JVS., लाहौर, १९३५ ई.।
- भासू.** = भाषिक-सूत्र- (शुभा. उपहित-), संपा. युगलकिशोर-, BSS., बनारस, १८८३ ई.।
- भागू.** = मानव-गृह्यसूत्र-, संपा. अष्टावक्रव्याख्या-समेत-, रामकृष्ण हर्षाजि-, गायकवाड-ग्रन्थमाला-, बड़ोदा, १९२६ ई.।
 ——— संपा. एफ. क्नाविर (Knauer, F.), सेंट पीटर्सबर्ग (St. Petersburg), १८९७ ई.।
- माशि.** = माण्डूकी-शिक्षा-, संपा. भगवद्दत्त-, दमप्र., लाहौर, १९२१ ई.।
- माश्री.** = मानव-श्रौतसूत्र-, संपा. एफ. क्नाविर (Knauer, F.), सेंट पीटर्सबर्ग (St. Petersburg), १९०० ई.।
- मीसू.** = मीमांसा-सूत्र-, संपा. रामेश्वरसूरिवृत्ति-समेत-, नित्यानन्दशर्मन्-, काशी, १९५६ वि.।
 ——— संपा. शबरस्वामिभाष्य-समेत-, जीवानन्दविद्यासागर-, कलिकाता, १८८३ ई.।
 ——— संपा. कुमारिलभट्टकृत-श्लोकवार्तिक-तन्त्रवार्तिक-टुप्टीका + शबरभाष्य-समेत-, गणेशशास्त्रिन्-, आन., १९३० ई.।
 ——— संपा. इंग्लिश-अनुवाद-समेत-, बी. डी. बसु-, Sacred Books of the Hindus, इलाहाबाद, १९२३ ई.।
 ——— इंग्लिश-अनुवाद-, गङ्गानाथ झा-, गायकवाड-प्राच्यग्रन्थमाला-, बड़ोदा, १९३३ ई.।
- मैअ.** = मैत्रायणीया-छन्दोनुक्रमणिका-, संपा. रघुवीर-, JRAS [pp. 547-553], १९३२ ई.।
- या.** = यास्कीय-निरुक्त-, संपा. लक्ष्मणसरूप-, पञ्चनदीयविश्वविद्यालय-, लाहौर, १९२७ ई.।
 ——— संपा. दुर्गावृत्ति-युत-, एच्. एम्. भडकंकर-, B.S.P.S., मुंबई, १९१८ ई.।
 ——— संपा. स्कन्दमाहेश्वरभाष्य-युत- [१ अध्या.], स्कन्दस्वामिभाष्य-समेत- [२-१२ अध्या.], लक्ष्मणसरूप-, पञ्चनदीयविश्वविद्यालय-, लाहौर, १९२८ ई.।
 ——— संपा. दुर्गावृत्ति-युत-, शिवदत्तशर्मन्-, वेंकटेश्वरप्रेस, मुंबई, १९८२ वि.।
 ——— संपा. वै. का. राजवाडे-, BORI., पूना, १९४० ई.।
 ——— संपा. मराठी-अनुवाद-समेत-, वै. का. राजवाडे-, इचलकरझीग्रन्थमाला-, पूना, १९३५ ई.।
 ——— इंग्लिश-अनुवाद-, लक्ष्मणसरूप-, आक्सफोर्ड (Oxford), १९२१ ई.।
- याशि.** = याज्ञवल्क्य-शिक्षा-, संपा. शिक्षावल्ली-विवृति-समेता-, अमरनाथशास्त्रिन्-, काशी, १९९४ वि.।
- लाश्री.** = लाटायन-श्रौतसूत्र-, संपा. अग्निस्वामिभाष्योपेत-, आनन्दचन्द्र-, BI., कलिकाता, १८७२ ई.।
 ——— [१, २ प्रपा.] संपा. स्वकीयवृत्ति-समेत-, मुकुन्दभा., चौंस., बनारस, १९३३ ई.।
- वागू.** = वाराह-गृह्यसूत्र-, संपा. रघुवीर-, पञ्चनदीयविश्वविद्यालय-ग्रन्थमाला-, लाहौर, १९३२ ई.।

- वाद्य. = वासिष्ठ-धर्मसूत्र-, संपा. ए. ए. फ्यूह्रर (Führer, A. A.), BSPS., मुंबई, १९१६ ई. ।
 ————— इंग्लिश-अनुवाद-, जी. ब्यूह्लर (Bühler, G.), SBE., आक्सफोर्ड (Oxford), १८८२ ई. ।
- वाधूश्री^१. = वाधूल-श्रौतसूत्र-, संपा. जर्मन-अनुवाद-समेत-, विलेम कैलण्ड (Caland, W.), Acta Orientalia
 (Vols II, IV, VI), १९२४, १९२६, १९२८ ई. ।
- वाश्री. = वाराह-श्रौतसूत्र-, संपा. रघुवीर-, MSPS, लाहौर, १९३३ ई. ।
- विद्य. = विष्णु-धर्मसूत्र-, संपा. कृष्णपण्डित-भाष्यसरोजित-, जे. जोली (Jolly, J.), BL., कलिकाता, १८८१ ई. ।
 ————— संपा. धर्मशास्त्रसंग्रह-, जीवनानन्दविद्यासागर, कलिकाता, १८७९ ई. ।
 ————— इंग्लिश-अनुवाद-, जे. जोली. (Jolly, J.), SBE., आक्सफोर्ड (Oxford), १८८० ई. ।
- वेज्यो. = वेदाङ्ग-ज्योतिष-, संपा. आर्. शामशास्त्रिन-, मैसूर, १९३६ ई. ।
- वैगृ. = वैखानस-गृह्यसूत्र-, संपा. विलेम कैलण्ड (Caland, W.), BI, कलिकाता, १९२७ ई. ।
 ————— इंग्लिश-अनुवाद-, " " १९२९ ई. ।
- वैताश्री. = वैतान-श्रौतसूत्र-, संपा. आर्. गार्बे (Garbe, R.), लंदन (London), १८७८ ई. ।
 ————— जर्मन-अनुवाद-, विलेम कैलण्ड (Caland, W.), आम्स्टर्डम (Amsterdam), १९१० ई. ।
 ————— जर्मन-अनुवाद-, आर्. गार्बे (Garbe, R.), स्ट्रस्सबर्ग (Strassburg), १८७८ ई. ।
 ————— मूको. (सोमादित्यभाष्य-समेत-) ।
- वैद्य. = वैखानस-धर्मसूत्र- + प्रवरखण्ड-, संपा. रंगाचार्य-, मैलापुर, मद्रास ।
 ————— संपा. वैगृ., विलेम कैलण्ड (Caland, W.), BL., कलिकाता, १९२७ ई. ।
 ————— इंग्लिश-अनुवाद- " " १९२९ ई. ।
- वैश्री. = वैखानस-श्रौतसूत्र-, संपा. विलेम कैलण्ड (Caland, W.), BI., कलिकाता, १९४१ ई. ।
- शंघ.^२ = शङ्ख+लिखित-धर्मसूत्र-, संपा. पी. बी. काणे-, ABORI (Vol. VII), पूना ।
- शांश्री. = शाङ्खायन-श्रौतसूत्र-, संपा. आनर्तीय + गोविन्द-भाष्य-समेत-, ए. हिलेब्रांट (Hillebrandt, A.), BI,
 कलिकाता, १८८८ ई. ।
 ————— इंग्लिश-अनुवाद-, [१-१८ अध्या.] विलेम कैलण्ड (Caland, W.), संपा. लोकेशचन्द्र-, सरस्वती-
 विहार-ग्रन्थमाला-, नागपुर, १९५३ ई. ।
- शांगृ. = शाङ्खायन-गृह्यसूत्र-, संपा. जर्मन-अनुवाद-समेत-, एच्. ओल्डनबर्ग (Oldenberg, H.), IS. लाइप्सिग्
 (Leipzig), १८७८ ई. ।
 ————— इंग्लिश-अनुवाद-, एच्. ओल्डनबर्ग (Oldenberg, H.), SBE., आक्सफोर्ड (Oxford), १८८६ ई. ।
- शुअ.^३ = शुक्रयजुः-सर्वानुक्रमणिका-, संपा. अनन्तदेवभाष्य-युता-, युगलकिशोरशर्मन्-, BSS., बनारस, १८९३ ई. ।
- शुप्रा. = शुक्रयजुः-प्रातिशाख्य-, उवट+अनन्तदेवभाष्य-समेत-, संपा. वैकटराम-, MUS., मद्रास, १९३४ ई. ।
 ————— संपा. उवट-भाष्य-समेत-, युगलकिशोरशर्मन्-, BSS., बनारस, १८८३ ई. ।
- शैशि. = शैशरीय-शिक्षा-, संपा. रघुवीर-, JVS., लाहौर, १९३५ ई. ।
- शौच. = शौनक-चतुराध्यायी-, संपा. इंग्लिश-अनुवाद-सहिता-, डब्ल्यू. डी. ह्विने (Whitney, W.D.), JAOS.,
 १८६२ ई. ।

(a) विभाग-खण्ड-पङ्क्ति-संख्यात्रिकेण संकेतः । खण्डान्तर्गताः b, c, d, e इत्येते प्रविभागाः यक. मूर्धभूतैः २, ३, ४, ५ इत्येतेरङ्कैः संकेतिताः द्र. । (b) सूत्र-संख्यया संकेतः, यथापेक्षं क्वचित् सूत्र-पङ्क्ति-संख्याद्वयेन च संकेतः । (c) अध्याय-सूत्र-संख्याद्वयेन संकेतः । प्रथमा तावद् अध्यायानाह, अथ द्वितीया भाष्यकारविभक्त-सूत्राख्याह ।

- ससू. = समराङ्गण-सूत्रधार-, संपा. त. गणपतिशास्त्रिन्, केन्द्रीयपुस्तकालय-, बड़ोदा, १९२४ ई. ।
- साभ. = सामवेदानुक्रमणिका- [नैगेयशास्त्रीया-], संपा. ए. वेबर (Weber, A.), IS., लाइप्सिग् (Leipzig), १८८५ ई. ।
- सु.^a = सुपर्णाध्याय-, संपा. ई. ग्रुबे (Grube, E.), IS., लाइप्सिग् (Leipzig), १८७६ ई. ।
- सुध. = सुमन्तु-धर्मसूत्र-, संपा. ति. रा. चिन्तामणि-, JOR., मद्रास., १९३४ ई. ।
- सुधप.^b = सुमन्तुधर्मसूत्र-परिशिष्ट- " " " " " "
- हिग्र. = हिरण्यकेशि-गृह्यसूत्र-, संपा. मातृदत्तभाष्यसारोपेत-, जे. कीर्स्टे (Kirste, J.), वीयना (Vienna), १८८९ ई. ।
- इंग्लिश-अनुवाद-, एच्. ओल्डनबर्ग (Oldenberg, H.), SBE., आक्सफोर्ड (Oxford), १८९२ ई. ।
- हिघ.^c = हिरण्यकेशि-धर्मसूत्र- ।
- हिपि.^d = हिरण्यकेशि-पितृमेधसूत्र-, संपा. विलेम कैलरड (Caland, W.), लाइप्सिग् (Leipzig), १८९६ ई. ।
- हिशु.^e = हिरण्यकेशि-शुल्बसूत्र- ।
- हिश्रौ. = हिरण्यकेशि-श्रौतसूत्र-, महादेवकृतवैजयन्तीप्रभृतिविविधव्याख्या-समेत-, संपा. काशीनाथ अगारो- [१-१४ प्रश्नाः] + शंकरशास्त्रिमारूलकर- [१५-२९ प्रश्नाः], आन., पूना, १९०७—१९३२ ई. ।

(क') ग्रन्थान्तरीयाः (of other Books)

- अपु. = अग्निपुराण- ।
- अस्मृ. = अष्टादशस्मृति-संग्रह- ।
- गङ्गा. = गङ्गानाथशा- ।
- पमा. = पराशरमाधवीय-भाष्य- ।
- पाशे. = पाणिनीये शेखर- ।
- बौगृप. = बौगृ. परिभाषा-सूत्र- ।

- रङ्गा. = रंगाचार्य- ।
- राज. = बै. का. राजवाडे- ।
- राजा. = राजाराम- ।
- वापाभा. = वासुदेवशरणकृत-पाणिनिकाशीन-भारत-वर्ष- ।
- स्मृश्रा. = स्मृतिचन्द्रिका-श्राद्धकाण्ड- ।

- ABORI. = Annals of Bhandarkar Oriental Research Institute.
- Böht. = Böhtlingk, Otto.
- BORI. = Bhandarkar Oriental Research Institute.
- BPG. = Böhtlingk, Otto : Pāṇini's Grammatik.

- BSPS. = Bombay Sanskrit and Prakrit Series.
- BSS. = Banaras Sanskrit Series.
- Büh. = Bühler, G.
- C. = Caland, W.
- GOIP. = Government Oriental Library Publication.

(a) वर्ग-सूत्र-संख्याद्वयेन संकेतः । (b) पृष्ठ-पङ्क्ति-संख्याद्वयेन संकेतः । (c) = हिश्रौ २६, २७तमौ प्रश्नौ यक्र. १, २ इति संख्याभ्यां स्थूलमुद्राभ्यां संकेतितौ द्र. । (d) समाकलितपटलान्तर्गतखण्ड-पङ्क्ति-संख्याद्वयेन संकेतः । (e) = हिश्रौ २५तमः प्रश्नः १ इति संख्यायां स्थूलमुद्रया संकेतितः द्र. ।

JAOS. = <i>Journal of American Oriental Society.</i>	R = Raabe, C. H.
JOR. = <i>Journal of Oriental Research.</i>	RIV. = Renou L. : <i>Index Vedique.</i>
JRAS. = <i>Journal of Royal Asiatic Society.</i>	RN. = Rajwade, B. K
JVS. = <i>Journal of Vedic Studies.</i>	RNM. = Rajwade, B. K., : या. <i>Marathi trans.</i>
Kn. = Knauer, F.	SBE. = <i>Sacred Books of the East Series.</i>
MSPS. = Mehar Chand Lakshman Dass <i>Sanskrit and Prakrit Series.</i>	SEY. = Siddheshwar Varma : <i>Etymologies of Yāska.</i>
MUS. = <i>Madras University Sanskrit Series.</i>	St. = Stenzler, A.
Old. = Oldenberg, H.	TAPA. = <i>Transactions of American Philological Association.</i>
POC. = <i>Proceedings of Oriental Conference.</i>	Web. = Weber, A.

(ख) लेखकीयाः (of Authors)

गङ्गानाथशा- रङ्गाचार्ये- राजाराम-	तु. मीस्. (क ¹) ,, वैद्य. (क ¹) ,, पाण्ड. (क ¹)	राजवाडे- बै. का. वासुदेवशरण-	तु. या., निघ. (क ¹) ,, वापाभा. (क ¹)
---	---	---------------------------------	---

Böhtlingk, Otto	cf. Böht, BPG.	Raabe, C.H.	cf. R.
Bühler, G.	,, Büh.	Renou, L.	,, RIV.
Caland, W.	,, C.	Siddheshwar Varma	,, SEY.
Knauer, F.	,, Kn.	Stenzler, A.	,, St.
Oldenberg, H.	,, Old.	Weber, A.	,, Web.

(ग) सामान्याः (General)

अच्यु. = अच्युत-ग्रन्थमाला- ।	प. = पटल- ।
अध्या. = अध्याय- ।	प्रपा. = प्रपाठक- ।
आन. = आनन्दाश्रम-संस्कृतग्रन्थमाला- ।	प्रयासं. = प्रयाग-संस्करण- ।
कालिसं. कालि. = कालिकाता-संस्करण-	बसं. = बरोदा-संस्करण- ।
कासं. = काशी-संस्करण- ।	मुसं. = मुंबई-संस्करण- ।
गुसं. = गुरुप्रसादशास्त्रि-संपादित- ।	मैसू. = मैसूर-संस्करण- ।
चौसं. = चौखम्बा-संस्कृतग्रन्थमाला- ।	लाभासं. = लाधाराम-संपादित- ।
जीसं. = जीवानन्दविद्यासागर-संपादित- ।	लासं. = लाहौर-संस्करण- ।
दमप्र. = दयानन्द-महाविद्यालय-संस्कृत- ग्रन्थमाला- ।	शिवसं. = शिवदत्त-संपादित- ।
	संपा. = संपादित- ।

अथ

वैदिक-पदानुक्रम-कोषे

वैदाङ्गिके चतुर्थे विभागे

प्रथमः खण्डः

अ

१अ, अन् <न(ञ्)

२अ- इदम्, एतद्- द्र.

३अ- शुभ्रा ८, ३; भात् पा ६, १, ८७; याशि २, ९४; पाग १, ४, ५७.

अं शुभ्रा ८, २१.

अः शुभ्रा ८, २२; तैप्रा ९, ७; ऋत ३, ६, ८.

अः-कार-रः तैप्रा १, २३.

अ-इ-कारा(र-अ)न्त-न्तेन शौच ४, ६९.

अ-इ-मध्य-ध्ये भाशि ८, १.

अ-उ-म-कारा(र-आ)त्मक-काः आम्रिगृ २, ४, १२:८.

अ-कार-रः शांश्रौ १, २, १४; १७; निस् ८, ६:११; २०; ४३; आम्रिगृ २, ४, १२: ४; ५; ६; अप ४७, ३, ३; ऋप्रा १, ३८; २, १६; ३४; १३, ३९; शुभ्रा १, ११४; ४, ४३; ६१; तैप्रा १, २१; ३२; ११, १; १५, ८; शौच १, ३६; भाशि ७, ३; आशि ३, ११; शैशि ९७; १०४; याशि १, ७९; २, २८; नाशि २, १, ३; पावा ३, २, १३५; ४, १, ८५; -रम् आश्रौ १, ५, ९; निस् २, ९; ६; विध ५५, १०; या ७, १४; ऋप्रा २, २७; ३२; १३, १५; १४, ४१; शौच ३, ५५; भाशि ७, ३; ९, १०; नाशि २, १, ३; -रस्य ऋप्रा १४, ४३; ६५; शौच १, १०१; ३, १३; ५३; शैशि ४७; पावा ३, ४, ८२; ७, १, २७; ३, ११९; ८, ४, ६८; पाप्रवा १, १; ५; -रात्

ऋप्रा २, ३५; अप्रा १, २, ६; २, ३, ४; ३, ४, १; पावा ३, २, १; -रे ऋप्रा २, ३३; ५९; ६५; शुभ्रा ४, ४४; अप्रा ३, ३, १९; शौच २, ५३; -रेण शांश्रौ ६, १, १५; अप ४७, १, १५; शुभ्रा ५, २५; भाशि २; -रैः लाश्रौ २, ९, १२^b; -रौ उस् ७, ६.

अकार° पावा ६, १, १११.

अकार-पर°-रः तैप्रा ९, ७; -रे तैप्रा ११, ९; -रौ तैप्रा ९, १३.

अकार-पूर्व°-र्वः ऋप्रा ४, ४२.

अकार-लोप-पे तैप्रा २०, ४.

अकारलोप° पावा १, १, ५१.

अकार-वचन-नम् पावा ३, ४, ८२; ७, २, १०२; -नात् पावा ३, ३, ९४; ७, १, ३३.

अकारवचना(न-आ)नर्थक्य^d-क्यात् पावा ७, १, २७.

अकार-वत् तैप्रा २, २१.

अकार-वत्-स्व-स्वात् पावा ७, २, ६२.

अकार-व्यञ्जन-पर-रः तैप्रा ४, ६.

अकार-व्यवधान°-नम् वागृ ३, ३.

अकार-व्यवाय^d-ये शौच २, ९२.

अकार-व्यवेत°-त्तः तैप्रा १, १६.

अकार-संहित°-तुम् या १४, ३२^f.

अकारा(र-आ)कार°-रयोः उस् ७, ११; -रौ उस् ७, २.

अकारा(र-अ)ङ्ग°-ङ्गे ऋत ५, २, ७.

अकारा(र-अ)ङ्गि°-दयः उस् १, १; याशि २, १; -दि तैप्रा १, ५२; अप्रा २, ३, ४; ५; -दिः शैशि १८; -दीनि अप्रा २, ३, ७; -दौ अप्रा ३, १, ३.

अकारा(र-आ)घ°-घाः भाशि ४७.

अकारा(र-अ)न्त°-न्तः अप्रा १, २, ७; -न्तम् अप्रा १, १, ४; -न्तस्य पावा ६, २, १९७; -न्तात् अप्रा २, २, ५; ३, ४; ३, १, २०; शौच ३, ७७; -न्तानि अप्रा २, ३, २०; ३, ३, १९; -न्तैः द्राश्रौ ६, १, १६^b.अकारान्त-ग्रहण^d-णम् पावा ६, २, १९७.अकारान्ता(न्त-अ)दर्शन^d-नात् पावा ४, १, ३.अकारान्ता(न्त-अ)नुकरण^d-णात् पावा ६, १, ९८.अकारान्ता(न्त-अ)नुपपत्ति^d-सिः पावा ४, १, ४८.अकारान्तो(न्त-उ)त्तर-पद^b-दः पावा २, ४, १७.अकारा(र-आ)बाध^d-धे अप्रा २, ३, १७.अकारा(र-अ)र्ध^d-धम् तैप्रा २, २६.अकारा(र-आ)अय^d-यम् पावा ६, १, ११३.अकारे(र-ई)कार^b-रौ अप्रा ३, १, १८.अकारे(र-इ)कार-रेफ^b-फाः पावा ४, ४, १२८.

a) वर्ण-विशेष-। b) सप्र. अकारैः <> अकारान्तैः इति पाठे.। c) बस.। d) षस.। e) तुस.। f) अकारसंहारितम् इति गुर्जरशास्त्रीयः पाठः। g) द्वस.। h) बस.>कस.।

अकारे(र-इ)कारो(र-उ)कार-
-रान् उस् ४, १९.

अकारे(र-इ)कारो(र-उ)कार-
(र-ऋ)कार(र-लृ)ल्कार- -राः
भास् ३, १४.

अकारो(र-उ)कार-मकार- -राः
आमिगृ २, ४, १२: १०.

अकारोकारमकारा(र-अ)-
क्षर- -रेण आमिगृ २, ४, १२: ४.

अकारो(र-उ)दय-वत्- ऋप्रा
१४, ६७.

अकारो(र-उ)प(धा>)घ-
-घस्य शौच २, ५३.

१अ-काल- -लः ऋत २, ४, १०.

अ-कु-ह- -हाः शैशि ४२.

अ-कु-ह-विसर्जनीय- -याः शुप्रा
१, ७१; आशि १, ७.

अ-स्व-निपातन- -नम् पावा ३, १,
२१.

१अ-पर- -रे पा ७, ४, ८०.

१अ-पूर्व- -र्वः भास् १, ९; -र्वस्य
पा ८, ३, १७.

अ-मात्र-स्वर- -रः शुप्रा १, ५५.

१अ-लोप- -पः शुप्रा ४, ४१; -पात्
तैप्रा १३, १५; -वे पा ६, ३, ९४.

अ-वर्ण- -र्णम् आशि १, ११; पावा
१, १, ५०; -र्णस्य शौच ३, ४४;

पा ६, ३, ११२; पावा १, १,
५०; ३, १, ६; -र्णे तैप्रा २, १२.

अवर्ण- -र्णयोः पावा १, १,
५०.

अवर्ण-कुल- -लम् आशि ६, १.

अवर्ण-धार(या>)ण- -णाः
भास् ३, १४.

अवर्ण-पर- -रः अप ४७, १, १३.

अवर्ण-पूर्व- -र्वः तैप्रा ९, ९; -र्वै
तैप्रा १०, ३; -र्वी तैप्रा १०, १९.

अवर्ण-प्रकरण- -णात् पावा ७,
४, ४७.

अवर्ण-प्रधान-स्व- -स्वात् पावा
१, १, ५०.

अवर्ण-मध्य- -ध्ये अप्रा १, १, ६.

अवर्ण-लोप- -वे पावा ६, ४, २२.

अवर्ण-व्यञ्जन-शकुनि-पत्स्यु (ली-
ऋ)तु-स्यु-मलिम्बु-बृहस्पति-
पूर्व- -र्वः तैप्रा ६, ७.

अवर्ण-व्यवेत- -तः तैप्रा ७, ५.

अवर्ण-हकार- -रयोः अप ४७,
१, १८.

अवर्ण-हकार-विसर्जनीय- -याः
याशि २, ९४.

अवर्णा(र्ण-आ)दि- -दि अप्रा
२, ३, १२.

अवर्णा(र्ण-अ)न्त- -न्तम् अप्रा
३, ४, ४; -न्तात् अप्रा १, १, ७;

पावा ६, ३, ९७; -न्तेन शौच
४, ५६.

अवर्णा(र्ण-अ)-प्रतिपत्ति- -त्तिः
पावा १, १, ५१.

अवर्णा(र्ण-अ)र्थ- -र्थम् पावा
८, ३, ६४.

अवर्णा(र्ण-उ)प(धा>)घ- -घः
हिश्री २१, २, ३४; -घस्य पावा
७, १, ८२.

अ-स्थ- -स्थात् ऋत ३, ६, ७.

अ-स्थ-नामिन्- -मिनी ऋत ३,
४, ४.

अ-ह- -हौ पाशि १७.

✓अंश^k, ऋभानशे काश्री १९, ३,
१२; आपश्री ५, १६, १; वीश्री
२, १७: ४६; १७, ४८: १४; भाश्री
५, ९, ९; वैश्री १, १३: १४; हिश्री
३, ४, ३९; ६, ५, १४; निस् ५,
६: ६६; निघ २, १८; आनाश
आपश्री १४, २९, ३१; आनाशिरे
या ११, १६; ऋभानशुः आपश्री
१३, २१, ३; हिश्री ९, ५, ४३;
या ११, १६६; ऋभानशध्वे द्राश्री
४, ३, ९; लाश्री २, ३, ८;
ऋभानशामहै ऋप्रा २, ४०.

१अंश^m- पाउभो २, ३, १४१; पाग
६, १, २०३; -शः आपश्री २३,
७, ५१; वीश्री १९, १: ४;
वाधूश्री ४, २: ६; हिश्री १८,
३, २१; जैश्रीप १६६; निस्
१, ५: २०; आपमं २, ३, ९१;
शांगृ ३, ९, १; कौसू ७१, ११;
बौध २, १, ५१; अप ४३, ५,
२११; बृदे ५, १४७; ७, ११४;
या १२, ३६६; ऋप्रा १७,
५; वेज्यो १६; -शम् वाधूश्री
४, ६४: ५; वाध १, ४४१; ३, १३;
शंध ११६: ५८; २७३; विध ३,
२२; ५९; ६०; ६३; ६, २१;
३६; १७, १७; तैप्रा १६, २८१;
पा ५, २, ६९; -शस्य या २,
१३; -शान् बौध २, २, १०;
३७; विध ३, ६९; १८, २; ७;
१२; १४; १७; २०; २३; ३६;
३९; वेज्यो १२; -शशाय वैगृ
५, २: २६; तैप्रा १६, २८; -शे
कप्र २, ६, १; ५; वेज्यो २७;

a) द्वस. । b) कस. । c) बस. > वतिः प्र. । d) बस. । e) नाप. । बस. उप. कस. ।

f) तु. गोपालयज्जा; वैतु. सोमार्यः कस. इति । g) द्वस. > बस. । h) तस. । i) षस. । उप. = स्थान- ।

j) द्वस. उप. = अवर्णोत्तर-स्वर- । k) बधा. । वैप १ परि. द्र. । l) पाभे. कृते वैप १ परि. आनंश क ४८,
१३ टि. द्र. । m) वैप १, परि. च द्र. । n) = लन्दोविशेष- ।

-शौ विध १८, ४; १५; २१; २६; ३९.

१अंश-क- पा ५, २, ६९^a; -कैः उनिस् ६: १८^b.

अंश-कल्पना- -ना विध १८, ५०.

अंश-ग्राहिन्^a- -हिभिः विध १५, ३९.

अंश-द्वय- -यम् विध ३, ६१.

अंश-प्रकल्पना- -ना विध १७, २३.

अंश भाजू^c- -भाक् बौध २, ३, ५; गौध ११, १११.

†अंश-भू^d- -भुवा तैप्रा १६, २८; -भूः आपथ्रौ १२, १०, २^३; हिथ्रौ ८, ३, ९^३.

अंश-चल-भृति^e- -तयः पा ५, १, ५६.

१अंश-शस् (:) बौथ्रौ २, ११: १५.

१अंशु^f- पाउभो २, १, १३; पाग ६, २, १९३; -शवः आपथ्रौ १, २१, ५१; २१, १३, ११; बौथ्रौ २६, ९: ११; वाध्रुथ्रौ ४, ९६: २५-२७; वैथ्रौ ४, ८: ५१; हिथ्रौ १, ५, ८२१; ८, ३, ३३; तैप्रा १६, २८१; -शुः आपथ्रौ १०, २४, ५१; १२, ८, १२; ११, १०१; १३, १०, ५; बौथ्रौ ६, १४: १०१; ८, ९: ५; १४, ४: ४१; ४३; ६: २३; १८, ३६: ४; ४०: ७१; २६, ८: ५; माथ्रौ १०, १६, ५१; माथ्रौ २, ३, ३, १०; ४, ३, २९१; ६, २६१; ५, १, ११; ४, २४; वाध्रुथ्रौ ४,

८६: १२१; ९६: २; ४; ६; ८; १०; ११; १३; १४; १६; १८; २०; २३; २४; वैथ्रौ १२, १७: १४१; १६, १०: ११; हिथ्रौ ७, २, ३८१; ८, २, १०; ३, ३११; ४, ४५१; ९, ३, २७; वैताथ्रौ १६, १७१; या २, ५१; शुप्रा ३, ७५१; †तैप्रा ११, १०; १६, २८; -†शुः-शुः आथ्रौ ४, ५, ६; शाथ्रौ ५, ८, ३; काथ्रौ ८, २, ६; आथ्रौ ११, ११; बौथ्रौ ६, १९: ११; २१: ९; माथ्रौ १२, १, ९; माथ्रौ २, २, १, १२; वैथ्रौ १२, २३: ६; हिथ्रौ ७, ३, ७९; द्राथ्रौ १४, २, ५; लाथ्रौ ५, ६, ८; वैताथ्रौ १३, २३; शुअ १, ३०४; -†शुना काथ्रौ १९, १, २१; आपथ्रौ ५, १७, ४; १०, २४, ५; १६, ३४, ४^३; बौथ्रौ ६, १४: १०; २५, १७: १८१; माथ्रौ १०, १६, ५; वैथ्रौ १२, १७: १५; १८, २१: ३२^३; हिथ्रौ ३, ४, ४८; ७, २, ३८; ८, २, २९१; ११, ८, १५^३; आपमं २, ३, २; शुअ २, ४२४; या १२, ३६१; तैप्रा १६, २८; भाशि १०६; -शुभिः काथ्रौ १२, ५, १९; आपथ्रौ १२, ९, ३; वाध्रुथ्रौ ३, ४९: ५१; तैप्रा १६, २८१; -शुभ्यः वैथ्रौ १५, ११: १०; हिथ्रौ ७, १, ७४; -शुभ्याम् बौथ्रौ ७, ५: २९; ३२; ३३; ३६; वैथ्रौ १५, ११: २१; -शुम् शाथ्रौ ५, ८, ४१; काथ्रौ ९, ४, ३४; ३५; १०, ३, १३; आपथ्रौ १२, ७, ११;

१७; ८, ५; ११, ५; १४, २९, ३१^३; २२, ११, ७^३; बौथ्रौ ७, ५: ४८; १३, २८: ३; १४, ६: २१; १२: २४; १६, १७: २; २९, ३: १९; माथ्रौ २, ३, ३, २१; वैथ्रौ १५, ९: १; ३: १०: २; ११: १९; १२: १२; हिथ्रौ ८, ३, २६; ५३; वैताथ्रौ ३३, १९; हिथ्रौ १, १६: ११; †या २, ५; ५, ११; १०, ३३; तैप्रा १६: २८१; -शुषु आथ्रौ ४, ४, ७; माथ्रौ २, ३, ३; २२: -शु आथ्रौ १२, १०, ५; १२; ११, ११; बौथ्रौ ७, ५: ३०; ३४; ३८; माथ्रौ २, ३, ३, १३; २२; वैथ्रौ १५, १२: १; ३; हिथ्रौ ८, ३, १६; तैप्रा १६, २८१; -शुन् शाथ्रौ ५, ८, ३; काथ्रौ ९, ४, ९; ५, ६; ११; १२, ५, १६; २१; आपथ्रौ १०, २४, ८; १४; १२, ७, १९; ८, ४; ९, ६; ८; १०; १०, ११; १२, ३; २२, १३, १९; काठथ्रौ १२२^३; बौथ्रौ ७, ५: २४; ६: ८; ८, १: १२; १४, १२: ४; ११; १७; २२: ४; ८; १८, ४१: ११; २५, १७: १८; २९, १: १३; माथ्रौ २, ३, ३, ७; ४, ४; वाध्रुथ्रौ ४, ८३: ३; वाथ्रौ ३, २, ५, ४^३; ८: ९; वैथ्रौ १२, १७: १७; १५, १०: १; ४; ११: १; ७; १०; १३; १३: ७; हिथ्रौ ७, २, ३८; ४३; ८, २, ३८^३; ४३; ३, ७^३; १५, ७, १६१^३; कौसु ६१, २२१; तैप्रा १६, २८१; -शुनाम् काथ्रौ २९: १८; बौथ्रौ ७, ६: १; २३, ५: ३३; हिथ्रौ ८, ३, १२; -†शो काथ्रौ

a) नाप ([अंश-हारिन्, भागप्रहणेऽधिकृन्-] पुत्रादि-) । b) स्त्रायै कन् प्र. । c) विप. (राजन्, सेतुकन्-) । उस. । d) वैप १, परि. च द्र. । e) द्वस. । f) सपा. काठ ४०, ५ अंशुम् इति पाठे. । g) =सपा. काठ ३५, १४ । शौ ६, ४९, २ तु अंशुन् इति पाठे. । h) सप्र. अंशुन् <> पंसुन् इति पाठे. ।

९, ४, ३५; आपश्रौ १२, ११, १०;
हिश्रौ ८, ३, ३१; अत्र ७, ८१;
-शोः काश्रौ १२, ५, ७; बौश्रौ
२३, ६:३; हिश्रौ ८, २, २८; तैप्रा
१६, २८†; -शौ आपश्रौ १२,
८, ११; बौश्रौ ७, ५: २६; ३१;
३५; २१, १७: १५; १६; वाश्रौ
३, २, ५, १७; हिश्रौ १०, ४,
१४.

भांशव^a- -वम् शाश्रौ १६,
१२, २०.

अंशु-ग्रह^b- -हे वैश्रौ १५, ११:२.

अंशु-ग्रहण^c- -णम् बौश्रौ ६,
१०: ६; -णे बौश्रौ २१, ११: ३.

अंशु-चमस^d- -सम् काश्रौ २२,
८, २२.

अंशु-पट्ट^e- -ट्टानाम् विध २३,
२१; -ट्टानि वैध ३, ४, ३.

अंशु-पात्र- -त्रम् बौश्रौ १४,
१२: २.

अंशु-मत्^f- -मत् बौश्रौ १४,
६: २४; २१, २२: १८; तैप्रा १६,
२८†; -मन्तम् आग्निश्र २, ६,
८: १७; -मन्ति बौश्रौ १४, ६:
२५; -मान् आपश्रौ २२, १२, ६.

†अंशुमती^g- -तीम् आश्रौ
८, ३, ३३; वंताश्रौ ३२, ३३;
वृदे ६, ११०.

अंशु-वत् काश्रौ १२, ५, २२;
१५, ८, २२; मीसू १०, ६, ३८.

अंशु(शु-अ)दाभ्य^h- -भ्ययोः
आपश्रौ १२, २, २; बौश्रौ १४,

१२: १; १६, १७: १; २३, १९:
३३; -भ्यौ बौश्रौ १४, १२: १.

अंशुदाभ्य-ग्रह- -हयोः वैश्रौ
१५, ८: १५.

अंशुदाभ्य-ग्रहण- -णम् काश्रौ
१२, ५, ६.

अंशु(शु-अ)दिⁱ- -दयः पा ६,
२, १९३.

१अंश- √*अंश द्र.

२अंश- (आंश्य^k-पा.) पाग ४, २, ८०.

१अंशक- √*अंश द्र.

२अंशक^l- (> आंशकायन- पा.) पाग
४, १, ९९.

१अंशु- √*अंश द्र.

२अंशु- (> १अंशुक^m- पा.) पाग ४,
२, ८०.

२अंशुक^m- पाउभो २, २, २३.

√अंस पाधा. चुरा. अदन्तः उभⁿ.
समाघाते

अंस^o- पाउ ५, २१; -सः आश्रौ १२,
९, ६; बौश्रौ १: २६^o; -सम् शाश्रौ
१, ६, ३; आपश्रौ ७, ५, ५^o; १०,
९, ८; १६, १९, ७; २४, १२, ७;
बौश्रौ ३, २१: ११; २७: ३३;
१०, १६: ४; २५: ६; ७; १४;
१५; २८: १; ४६: २१; ११,
१०: ३; २०, ९: ५; २६: २०;
२३; भाश्रौ १०, ६, २; वाश्रौ
१, ३, ३, ९; २, १, ५, ५: ७, १४;
वैश्रौ १८, १६: १६; ३३; १९, ५:
३४; हिश्रौ ५, २, १३; ६, ४,
२१; १०, २, ७; ११, ६, ३९^o;

जैश्रौ ४: ७; १३: २४; कौश्र २,
२, १२; ५, ८, ५; शाश्र २, ३, ३;
४, ४; आमिश्र १, १, ३: ८; २२;
६, ३: ३०; बौश्र १, ४, १; भाश्र
१, ८: ५; १७: ७; वाश्र ५,
३७; हिश्र १, ५, ८; ११; २०,
२; २१, ३; गोश्र २, १, २३;
६, ३: १०, २४; २७; जैश्र १,
१२: ३१; द्राश्र २, २, १९; ४, १५;
१७; बौध १, ७, १३; आपश्रु
१, १२; २, २; ४, ७; ९, ६;
८; बौश्रु १०: ७; २०: ११; हिश्रु
१, २२; २३; २, ६; ३, २५; २७;
-सयोः आपश्रौ ७, २५, ६; १५,
१५, १; भाश्रौ ७, ११, ३; ११,
१५, १०; माश्रौ ६, १, ७, १५;
वैश्रौ १८, १६: ४५; हिश्रौ ११,
७, १०; ८, ३†; २४, ६, १२;
-सा आश्रौ ३, ३, १†; शाश्रौ
५, १७, ५†; भाश्रौ ५, २, ९, ४;
-सात् आपश्रौ ८, ५, २०; बौश्रौ
१, १३: १७; १०, २८: ९; २९:
७; ४२: २०; ४६: १८; भाश्रौ
२, ८, १३; ८, ४, १५; माश्रौ १,
७, ३, ४६; २, २, ३, ३; ६, १,
५, ४१^o; वाश्रौ १, ७, २, २१;
वैश्रौ ८, ९: ९; १४, ४: ९; १९,
५: ३३; आपश्रु ५, ९; बौश्रु
८: २४^o; १०: ६; हिश्रु २, १८;
-साम्याम् भाश्रौ १, २, ४, १९;
आपमं १, १७, २; हिपि ९: ८;
तैप्रा १६, २९†; -से आश्रौ १,

a) नाप. (वासस्-). तस्यविकारीकः अञ् प्र. (पा ४, ३, १३९)। b) मध्यमपदलोपी कस.। उप.
=पात्र-। c) नाप. (सोममानौपयिकपात्र-विशेष- L तु. B.I.)। कास. अधिकरणे रुयुट् प्र.। d) नाप.।
कस. (तु. विद्याधरः)। पूष. = सोमरस-पूर्ण-। e) नाप.। कस.। पूष. = तन्दु-निर्मित-। f) विप. (ऋजीष-
L बौश्रौ.)। नाप. (देवता-विशेष-). g) वैप १, परि. च द्र.। h) व्यप. (नदी-विशेष-). i) ग्रह-विशेषयोः
दस.। j) बस.। पूष. = रश्मि-। k) देश-विशेष-?। व्यु. ?। l) व्यप. (गोत्रप्रवर्तक-ऋषि-विशेष-).।
m) नाप. (वस्त्र-).। व्यु. ?।

३, २५; काश्रौ ५, ४, १२^३;
 आपश्रौ ११, २१, ३-५; १२,
 १, ७; २, १; १६, १९, ८;
 २६, १; २७, २२; १७, १, ८;
 ३, ९; बौश्रौ ३, २७: २७: ४, ३:
 ७; १०; ५, १५: ७; ६, ३२: ९;
 ३३: ४; ६; ९; १२; १०, ३८:
 १९; ४२: १९; ४५: २२; ४६:
 १३; १५; २२; ११, २: २७^३;
 २०, २६: १८; ३१: २२; २२,
 ८: ३१; भाश्रौ ७, ४, ९^३; माश्रौ
 १, ७, ३, ३१^३; २, ३, १, १४;
 ५, २, ८, १६; ६, १, ८, १; ५^३;
 वाश्रौ २, १, ७, १५; वैश्रौ १०,
 ५: १०; १३; १४, १८: ७;
 १९: ३; ६; २०: १; १५, २:
 ३; १६, २३: ८; १७, २: २;
 ८: ७; १८, १५: ७; १६: १७;
 १८: ६; १९, २: १२; १३; ५:
 ३१; हिश्रौ ४, २, ७; १०; ७,
 ८, ६३-६५; ८, १, १९; ३०;
 ९, ५, ११; ७, १६; ११, ६, ४१;
 ७, ६३; १२, १, ६; ४४; कौश्रु २,
 १, ३२; शाश्रु ६, ६, ६; आश्रु ३,
 ५, ७: ९; बौपि १, ६: ३; ३, १,
 १६; वाश्रु १५, २६; हिपि १५:
 ९; गोश्रु १, २, २; ३; आपध १, २५,

४; हिध १, ६, ७९; बौशु ३: ५^३;
 ८: ४; १७: ११; तैप्रा १६, २९^३;
 -सेन वाश्रु १०, १७^३; -सेषु
 आश्रु ३, ५, ३: ४; ५; बौपि
 ३, ३, ५; -स्तौ काश्रौ २, ६, १;
 आपश्रौ ११, ४, १३; बौश्रौ ६,
 २२: १२; १८; १७, २८: १५;
 भाश्रौ १२, ४, १७; वाश्रौ १, ३,
 २, १; वैश्रौ १३, १७: ५; १४,
 ४: ४; हिश्रौ ७, ४, ४०; आश्रु
 १, १५, ३; २०, १०; आपशु ५,
 १^३; ३; ४; ६; बौशु १०: ९; २०:
 ९; १२; हिशु २, ८^३; १०; १२;
 १५; ३९^३; वृदे ४, २२; तैप्रा
 १६, २९^३; भाशि ६१^३.
 अंस-त्र^३- -त्रम् बौश्रु ३, ५, ११^३;
 निघ ४, २^३; या ५, २५^३;
 -त्राणि या ५, २६.
 †अंसत्र-कोश^३- -शम् या ५,
 २६^३.
 अंस-दन्न^३- -न्नम् माश्रौ १, ५, ४,
 १२; -न्ने वाश्रौ १, ४, ३, १३.
 अंसदन्नी^३- -न्नी: माश्रौ २, २,
 २, २८.
 अंस-देश^३- -शे काश्रौ २, २, १७.
 †अंस-(धि>घ्री>)द्री^३- -द्रीम्
 कौसू ६१, ४४; अत्रा ३, ४, १.

अंस-भार- (>अंसभारिक^३- पा.)
 पाग ४, ४, १६.
 अंस-ल- पा ५, २, ९८.
 अंसल-भोजन^३- -नम् काश्रौ ७,
 २, २२.
 अंस-शिरस^३- -रांसि वाश्रौ २, १,
 ७, १४.
 अंस-शिरो(रस्-अ)नूक-सक्थि-प्रति-
 वेध^३- -ध: मीसू १०, ७, ६.
 अंसा(स-अ)न्वंस^३- -सयो: शाश्रौ
 ४, ५, १३; कौश्रु ५, ६, ५^३.
 अंसा(स-अ)र्थ- -र्थम् बौशु १: १९;
 ३०.
 अंसीय^३- -यात् बौश्रौ ६, २२:
 २२; २३: ८; २७: २८; १०,
 २३: ८; २६: १०.
 अंसे-भार- (>अंसेभारिक^३- पा.)
 पाग ४, ४, १६.
 अंसो(स-उ)बल^३- -लयो: आपश्रौ
 ७, १४, २०.
 अंसो(स-उ)वार^३- -रे हिश्रौ ४, ३,
 २५^३.
 √अंह(बधा.), पाधा. भ्वा. आत्म.
 गतौ, चुरा. उभ. भाषायाम्^३.
 *अंह-
 †अंह-ह^३- -०हौ^३ आपश्रौ २,
 २०, ६; बौश्रौ २४, २९: २१;

a) भाप. (बन्ध-)। 'बधुवरयोर्वसनान्तयोगेन कृतेन सता (=तदुपलक्षिता: सन्तः) वरपक्ष्याः ?विसंकसेयुः
 (=विसंकष्येयुः L कन्यापितृशहाद् विप्रयुक्ता भवेयुरिति भावः।)' इति वा. ? (वैतु. संस्कृतुः टि.)। b) वैप १, परि.
 च द्र.। c) विप. (रथ- L तु. वैप १ ६८१ h टि.)। d) विप. (उपरव-)। e) विप. (स्थूणा-)।
 f) कस. पूष. = वेदिकोण-। g) नाप. (भारवाहिन-)। h) विप.। षस. पूष. = [L स्थूल-] धेन्वन्डुह-।
 i) द्रस.। j) द्रस. > षस.। k) विप. (L *अंसाऽनुबद्ध-] बाहु-)। अंस- + (अन्व [तु √अं]स L *संयोगे]
 भावे) *अंन्वस- > बस. (वैतु. अन्वन्तार्यः उस. इति; C. बस. अन्वंस- इति नाप. [L *अंसफलक-] सद् उप. इति च ?)।
 l) *न्वांसयोः इति पाठः ? यनि. शोषः (तु. शाश्रौ.)। m) छः प्र. उसं. (पा ४, ४, ११७)। n) = अंस-कोटि-।
 तस.। o) सपा. *बलयोः < > *वारि इति पाठे.। p) धा. संपीडनसंहननार्थे वृत्तिः अंहति- प्रमृ. द्र. (तु.
 या ४, २५)। q) = देव-विशेष-। व्यु. ?। उस. पूष. = अंहस- इति उप. < √ हन् [हिंसायाम्] इति भा. सा.
 L तैत्रा] C; भा [पक्षे] अंह- (= गति-) + ह- (< √ हा [ज्ञाने]) इतीव । r) सपा. अंहहौ (तैत्रा ३, ७, ५,
 १२ च) < > ? अहाहाहृ इति पाठे.।

माश्रौ २, १९, १; हिश्रौ २, ५, ४७.

अंहति^१- पाउ ४, ६२; पाग ४, ९१, ४५; -^१ति: या ४, २५^२क; ५, २३; तैप्रा ११, ४; १६, २८; -तिम् शाश्रौ १२, २, १४^३.
अंहती- पा ४, १, ४५.

अंहस^१- पाउ ४, २१३; -ह: आश्रौ २, १०, ७^२; आपश्रौ ६, २२, १^३; वेगृ ५, २: १६; २०^४; अप ४८, ६३; बाध २६, ७; या ४, २५^२क; ऋप्रा २, ४२^५; तैप्रा ८, १५^६; उनिस् ५: ५^७; -^१हस: आश्रौ १, २, १; ९, ५: २, १०, ६; ३, १३, १५; शाश्रौ १, ६, ४; १४, १९; ८, २४, १; काश्रौ २५, ९, १२; आपश्रौ ६, २२, १; ७, २१, ६; ९, १०, १५; १०, ८, ९; बौश्रौ ३, २८: १; ७, १०: ८; ९; ९, ८: २०; १७: ७; १२, १: १८; १३, ३४: ४; ६; २७, १४: १६; २८, ९: ५; माश्रौ ७, १६, १३; माश्रौ १, ८, ३, ३४; २, ३, ७, २^८; वाश्रौ १, ६, ५, ५; वैश्रौ १५, २३: ११; हिश्रौ ४, ४, ४४; ७, १, ६०; ८, ५, ३५; १५, ३, २५; ८, ४; २१, १, २; २, २१; जैश्रौ १२: ८; द्राश्रौ ९, १, ११^९; लाश्रौ ३, ५, ११^९; आपमं १, ७, ९^९; आमिगृ २, ७, ९: १०; बौगृ १, ५, ५^९; २, २, ६; ४, २, १२^९; मागृ २, १५,

६; कौसू ४४, १७; ५८, १; ७२, १४^९; अप्राय ६, ९; ङ्बौध ४, ६, ५; ८, ८; बुदे ७, १०६; या ५, २५^९; तैप्रा ८, २४; ११, ४; १६, २८; -हसा बौध ४, ८, १; तैप्रा १६, २८.

^१अंहस (: >) स-पति^१- -तये^१ काश्रौ ९, १३, १८.

अंहस-पति-

^१अंहस्पत्य^१- -त्याय^१ आपश्रौ ८, २०, ८; १२, २७, ५; बौश्रौ ७, १६: ४०; माश्रौ ८, २३, ७; माश्रौ २, ४, २, ३; वैश्रौ ९, १२: १२; १५, ३४: ९; हिश्रौ ५, ६, २; बौगृ २, १०, ८.

अंहस-वत्- -वान् या ६, २७.

अंहो-मुच्^१-^१-मुक् ऋप्र २, १०, १२६; साअ १, ४२६; -मुग्भि: कागृ ४२, ३; -मुग्भ्याम् तैप्रा १६, २८^१; -^१मुच: आपश्रौ ८, १५, १७; १०, १३, ९; बौश्रौ २८, ९: १५; माश्रौ १०, ८, १४; वैश्रौ २१, २: १; हिश्रौ १०, २, ३०; माशि ८, १०; -^१मुचम् सु १९, ६; बौगृ २, २, १०; अअ १९, ४२; तैप्रा १६, २८; माशि ६१; -^१मुचे आपश्रौ ३, १६, २९; १८, १०, २८; २०, ७, १३; २३, २; बौश्रौ १२, २: १५; ५: १७; १३, १२: १; २; ३५: ६; १०; १५, ८: १२; ३७: १७; २८, १: १४^९; माश्रौ ५, १, १०, ४०;

वाश्रौ ३, ३, १, ४०; ४, १, ३२; वैश्रौ २०, ३३: ६; हिश्रौ १३, ४, १४; १४, ५, १२; २२, ५, २१^३; अप्राय ६, ७; अअ १९, ४२; या ७, १३; -^१मुचौ आमिगृ २, ४, ५: ७^९; बौध ४, ७, ५.

अंहोमुच्^१- -चेन आ १३, २, ६.

अंहो-लि (ङ् >) ङ्गा^१- -ङ्गाभि: कौसू ३२, २७; -ङ्गानाम् कौसू ५२, १६; ५८, २४.

अंहोलिङ्ग-गण- -ण: अप ३२, १, ३१; -णस्य अअमू ३.

अं (हर >) हा-रि^१- -रि: शाश्रौ ६, १२, २०^१.

अंहु^१- -हु या ४, २५; -^१हो: तैप्रा १६, २८.

^१अंहोय (स् >) सी^१- -सी आपश्रौ २, ३, २; काठश्रौ ९६; बौश्रौ २४, २४: ८; आपशु ४, ६; -सीम् आपश्रौ ७, ३, ११; माश्रौ २, २, १२; वैश्रौ १४, ४: १६; हिश्रौ ७, ४, ४६; बौशु १: २७.

^१अंहु-भेदि, ङी^१- -^१द्या: आश्रौ ८, ३, २८; शाश्रौ १२, २४, २; १६, ४, ३; वैताश्रौ ३२, ३१.

^१अंहु-र^१- -र: निघ ४, ३; या ६, २७^९.

√*अं (हु >) हरि^१ > अंहरण^१- -णम्, -^१णात् या ६, २७.

a) वैप १, परि. च द्र. । b) पांमे. कृते वैप १ परि. तै ३, २, ४, ३^३ टि. द्र. । c) पांमे. कृते वैप १ परि. मा १२, ९ टि. द्र. । d) सपा. शौ १४, २, ७ रक्षस: इति पांमे. । e) पांमे. कृते वैप १ परि. द्र. । f) विप., व्यप. (ऋषि-विशेष, [एतच्छब्दवती-] ऋग्-विशेष-) । g) मृगारांहो^१ इति पाठ: ? °रौहो^१ इति शोध: द्र. (तु. बौध.) । h) नाप. [सृक्-] । मत्वर्थीय: अच् प्र. । i) नाप. [ऋक्-] । बस. । j) पाठ: ? °याम् इति शोध: । एतदनु वैप १, २ अपि शोधाहौ । ?°भेद्या: <> ?अणुहोत्र्या: इति पांमे. ।

अंङि ^a - पाठ ४, ६६.	अ-कद्र- -द्रवाः पा ६, ४, १४७.	१२५ ^y ; -र्णया आपश्चौ १०, २२, ३; -र्णा भाश्चौ १०, १४, १९; १७, १२.०
✓अक् भ्वा. पर. कुटिलायां गतौ ।	अ-कनिष्ठिका- -काम् जैश्रौका १० ^f .	३अ-कर्ण ^w - -णः कौसू ७, २५; -र्णम् कौसू ५३, २.
†अ-क ^b - -कम् वैश्रौ २०, ६ : २; वाधुश्री ४, १९ ^c : १३६; १४; हिश्रौ १५, १, ४८ ^d ; या २, १४६.	अ-कपाल ^b - -लम् आपश्चौ ९, १५, २; हिश्रौ १५, ४, २३ ^e .	अ-कर्णक ^x - -कः आपमं २, १४, १; आग्निगृ २, १, ३ : २२; भागृ १, २३ : १५; हिगृ २, ३, ७.
अकः ✓कृ द्र.	अ-कम्प- -म्पः उसू ८, २७.	अ-कर्ण-गृही (त >) ता ^y - -ता आपश्चौ १०, २२, ९; -ताम् हिश्रौ ७, २, २३.
अ-ककार-पूर्व ^c - -र्वाः ऋप्रा ५, ४०.	अ-कम्पन ¹ - -नम् जैश्रौका १८१.	अ-कर्णयोः शौच २, ६५ ^z .
अ-ककारा (र-आ) दि ^c - -दौ पावा ६, १, १३५.	अ-कम्पित ^{h,m} - -तान् ऋप्रा ३, ३१.	अ-कर्तव्य, व्या- -व्यः निसू २, १२ : २; ५, ६ : १८; २८; -व्या निसू ८, ११ : २; -व्याः निसू २, ९ : २५; ६, ५ : १६; ६ : ५; ९ : १६; १२ : १७; ७, १३ : १०; ८, ७ : २०; ९, ६ : ४; ७ : २; १० : २४; -व्यानि निसू ९, ११ : २९; १०, ८ : १२.
अ-ककुत्-पृथिवी ^d - -व्योः शुप्रा ३, २४.	१अ-कर ⁿ - -रान् गौध १०, ११.	१अ-कर्तृ ^o - -र्तारि पा ५, ४, ४६; पावा १, ४, २३; २, २, १४; -र्ता आपश्चौ १, ३, १५; हिध १, १, ८८.
अ-कखा(ख-आ)दि ^e - -दौ पा ८, ४, १८.	२अ-कर ^{h,o} - -रः वाध १९, २३; आपध २, २६, १०; हिध २, ५, २०५; -राः अप ५, ४, ५.	२अ-कर्तृ ^p - -र्तारि पा २, ३, २४; ३, ३, १९.
अ-कच्चि(द् > च्-चि)त् ^f - -क्षिति पा ३, ३, १५३.	१अ-करण ¹ - -णान् ^q आपश्चौ ४, १, ३; -णेन पावा ४, ४, ८३.	अ-कर्तृ ^q - -र्तारि पा २, ३, २४; ३, ३, १९.
अ-कडु(क >)का ^g - -काः गोगृ ४, ७, ४.	२अ-करण ^r - -णानि अप्रा १, १, २४.	अ-कर्तृ ^r - -र्तारि पा २, ३, २४; ३, ३, १९.
अ-कठिन- -नः कप्र २, ५, १३.	अ-करण-चर्ण ^g - -र्णाः निसू ८, ७ : २१.	अ-कर्तृ ^s - -र्तारि पा २, ३, २४; ३, ३, १९.
अ-कण्टक, का ^h - -कम् अप १, ४५, ८; -काः गोगृ ४, ७, ४; कौसू ८३, ११.	अ-कराल ¹ - -लम् बौश्रौ २, ३ : ८.	अ-कर्तृ ^t - -र्तारि पा २, ३, २४; ३, ३, १९.
अ-कण्ठ्य ¹ - -ण्ठ्यः शुप्रा १, ४६; -ण्ठ्यम् ऋप्रा २, २१.	अ-करिष्यत्- -व्यन् द्राश्रौ, लाश्रौ १, १, ९; निसू ८, १३ : २७.	अ-कर्तृ ^u - -र्तारि पा २, ३, २४; ३, ३, १९.
अ-कत- > आकत्य- पा ५, १, १२१.	अ-कक्ष्या(की-आ)दि ^c - -दीनाम् पा ६, २, ८७.	अ-कर्तृ ^v - -र्तारि पा २, ३, २४; ३, ३, १९.
अ-कथा ¹ - -था पावा १, ४, ५१.	१अ-कर्ण ^p - -र्णाः बौश्रौ १२, ६ : ९; हिश्रौ १३, ४, २३; -र्णान् आपश्चौ १८, ११, १३; १८; बौश्रौ १२, ६ : ३; ७; ११; हिश्रौ १३, ४, २२.	अ-कर्तृ ^w - -र्तारि पा २, ३, २४; ३, ३, १९.
अ-कथित- -तम् पा १, ४, ५१; -तस्य पावा १, ४, २३.	†२अ-कर्ण, र्णा ^u - -र्णः हिश्रौ ४, ३, १; -र्णम् वैश्रौ १६, १८ :	अ-कर्तृ ^x - -र्तारि पा २, ३, २४; ३, ३, १९.
अकथित-त्व- -त्वात् पावा १, ४, २९; ५१.		अ-कर्तृ ^y - -र्तारि पा २, ३, २४; ३, ३, १९.

a) = अङ्घ्रि- । b) वैप १, परि. च द्र. । c) तस. > बस. । d) तस. > द्वस. । e) तस. > द्वस. > बस. । f) बस. । g) तस. । h) विप. । बस. । i) = अकथित- । j) पाठः ? ष्टिक- > -कम् इति शोधः । k) एक-कपालम् इति पाठः ? यनि. शोधः द्र. । l) बस. । वा. क्रिवि. । m) उप. = स्वर-दोष- । n) = कर्मण्य- । नाप. तस. । उप. कर्तरि कृत् । o) उप. = राजस्व- । p) तस. । उप. करणे ल्युट् प्र. । q) सपा. अकरणान् <> अकर्मकरणाः <> अकर्मकरणान् <> अकर्मयुक्ताः इति पाठे. । r) विप. (आख्यात-) । बस. । s) तस. > कस. । t) विप. (उद्गातृ-) । तस. । = उन्नतदन्तरहित- इति वेङ्क. ? । u) विप. (पशु-, गो-) । वैप. १, परि. च द्र. । v) सपा. अकर्ण वा प्रोर्ण्य <> अवकर्णप्रानुताः इति पाठे. । w) विप. (लोप्य-रहित- = वर्तुल- । अश्मन्-) । बस. । x) = २अकर्ण- । बस. ससासान्तः कप् प्र. । y) विप. (गो-) । तस. उप. तस. । z) कर्णयोः कृधि (शौ ६, १४१, २) इत्यत्र विसर्जनीयः सत्वं नापद्यते ।

३, १, ८७; -काणाम् पावा ३, २, १४१; -कात् पा १, ३, २६; ३५; ४५; ४९; ८५; ८८; ३, २, १४८; पावा १, ३, ८८; -केभ्यः प्रा ३, ४, ६९.
 अकर्मक-ग्रहण^a - णे पावा १, ४, ५२.
 अकर्मक-त्व- -त्वात् पावा ३, १, ७.
 अकर्मक-वत् पावा १, ४, ५२; २, ३, ५२.
 अ-कर्म-करण^b - णाः वैश्रौ ३, १ : ६०; मीसू ३, ८, १५; -णान् हिश्रौ ६, १, ८०.
 अ-कर्म-काल- -त्वात् मीसू ११, ३, ३.
 अ-कर्म-काल-निष्पत्ति^c - -त्तेः मीसू ११, ३, २.
 अ-कर्मधारय^d - -ये पा ६, २, १३०; पावा ६, ३, १४.
 १अ-कर्मन्^e - -र्म मीसू ३, १, ८; ४, १२; ६, ८, १४; १५; ९, ४, ५१; १०, २, ३; ५; १२; १३; ७, ४३; ८, १०; १२, १, ९; -र्मिणाम् मीसू ६, २, २१; -र्मिणि हिश्रौ ३, १, ३; ४^३; मीसू ६, ३, १०; -र्मिणे जैश्रौ ८ : ५.
 १अकर्म-त्व- -त्वात् मीसू ६, १, ४६; २, २१.
 २अ-कर्मन्^f - -र्मिणः पावा ३, १, ७; -र्मिणाम् पावा १, ४, ५१.
 २अकर्म-त्व- -त्वम् मीसू ४, १,

२७.
 अ-कर्म-युक्त^g - -क्ताः वाश्रौ १, १, २, १२०.
 अ-कर्म-शेष- -त्त्व- -त्वात् मीसू २, ३, १२^h; ६, २, २५.
 अ-कर्म-श्रान्तⁱ - -न्तम् आगृ ३, ७, २.
 अ-कर्म-संयुक्त^j - -क्ताः मीसू १२, ४, १.
 अ-कर्म-संयोग^k - -गात् मीसू ११, २, ६५.
 अ-कर्म-सन्निधि^l - -धौ^m मीसू २, ३, २५.
 अ-कर्मिन्ⁿ - -र्मिणः बौध २, २, ४०.
 अ-कल्पा(ल्प-आ)दि^o - -देः पावा ४, २, ६०.
 अ-कल्मष^p - -षम् अप ७०, २, २.
 अ-कल्माष^q - -षम् आमिगृ २, ३, ३; ८; -षाणाम् कौसू ८६, १४; -षान् माश्रौ १, १, १, ३६.
 अ-कल्माषी - -षी काश्रौ १६, २, ५.
 अ-क(ल्य >)ल्या^r - -ल्याम् गौध ९, २९.
 अकल्य-परिचरण^s - -णात् विध ९१, १८.
 अ-कल्याण - -णम् विध ९६, २३.
 १अ-कवा(व-अरि)री^t - -री उसू ४, २०.
 अकशाप L, य^u - (> आकशापे- L, ये] य- पा.) पाग ४, १,

१२३^p.
 अ-कस्मात् बौपि ३, १, ३^३; अप ६४, ३, ९; ७, ६; ९, ५; ६७, २, २; ६८, १, ४३; ६९, ४, २; ७०, ६, १; ७०^३, १४, १; १५, २; १७, ३; ७०^३, २७, १०; ३०, ५; ७१, १५, ५; १०; १७, २; ७२, ३, ९; गौध ९, ७, ५१; वृदे ४, १५; पाग ५, ४, ३४; ६, २, १६०; मीसू ३, २, १२; ५, ३, ४२; १२, ४, ३०.
 आकस्मिक- पा ५, ४, ३४.
 १अ-काण, णा^v - -णः हिश्रौ ४, ३, १; -?णा^w भाश्रौ १०, १४, १९; १७, १२.
 १अ-काम^x - -मम् कौगृ ३, ९, ४७.
 अकाम-कृत - -ते शंघ ३७८; ३७९; अकाम-तस् (:) कप्र ३, ६, १८; शंघ ४४९; विध २८, ५१.
 अकाम-तो (ता-उ) प-नत - -तम् वाध २३, १३^३.
 १अकाम-नियत^y - -तम् बौश्रौ २१, २६ : १०.
 अकाम-व्याप्त^z - -सानाम् काध २७१ : ५.
 अकाम-संज्ञपन - -ने आपश्रौ ९, १८, ६; हिश्रौ १५, ८, १; ९.
 अकामो(म-उ)त्पात - -तः शांगृ ४, ५, ५२^३.
 २अ-काम, मा^{aa} - -मः १अप ४६, ६, ४; शंघ १००; विध १८, ४२;

a) तस. । b) विप. । तस. । उप. यद्र. । c) पामे. पृ ९ q टि. द्र । d) बस. > षस. > भावे त्वः प्र. । e) तस. षस. > सस. । f) बस. । g) तस. > सस. । h) अकर्मशब्दत्वात् इति जी. प्रया. पामे. । i) तस. > त्स. । j) तस. > षस. । k) कर्म-सन्निधौ इति कासं. । l) तस. > बस. । m) विप. । बस. । n) वैप १, परि. च द्र. । o) व्यप. । व्यु. ? । p) शाप- (पाका.) <> शाय- (भाण्डा. पासिकी., पागम.) इति पामे. । q) काणा इति पाठः ? यनि. शोधः (तु. वैप १, ७ m टि., तैसं ६, १, ६, ७ माश्रा ३, ३, १, १६) । r) तस. । मम् इति वा. क्विवि. । सपा. अकामम् <> अकामोत्पातः इति पामे. । s) = अकाम-प्रवृत्त- । तस. । t) तस. । उप = संसङ्ग- ।

४३; -मा बौध २, २, ६३; -मे शोध २७०; पा ६, ३, १२; -मेन गौध १५, १८.
 २अकाम-नियत^० - तौ ऋषा ४, ३०.
 अ-कामयमान- ने आपथौ १७, १२, १३; हिश्रौ १२, ३, १५.
 अ-कामाऽऽत्मन्^० - स्मा वाध १, ६.
 अ-काम्य- -स्यः गोगृ १, ६, २.
 अ-कार- ३अ-द्र.
 अ-कारक- -कम् पावा १, ४, २९, ५१; २, ३, १; -कस्य पावा १, ४, २३.
 अ-कारक-त्व- -त्वे पावा २, ३, ३६.
 अ-कारका(क-अ)र्ह- -र्हाणाम् पावा २, ३, ३६.
 १अ-कारण^० - गम् लाश्रौ १०, ३, ९; -णात् आपथ १, ७, १०; १५, ६; २६, १; ३१, ७; ३२, २८; २, २०, १६; हिध १, २, ६७; ४, ६५; ७, १२; ८, २५; ६९; २, ५, १०२.
 २अ-कारण^० - गम् मीस् १, ४, २२.
 अ-कारिन्- पाग ३, १, १३४.
 अ-कात्स्न्य^० - स्त्न्येन मीस् ९, ४, १.
 अ-कार्पण्य- -ण्यम् गौध ८, २१.
 अ-कार्य^० - र्यम् आगृ १, २३, २०; -र्याणि जैगृ २, ८: १८; बौध ३, ९, १०.
 अकार्य-कारिन्- -रिणः विध २२, ९०; -रिणम् कौगृ ३, ११, ३६; शांगृ ४, ११, ४.
 अकार्य-कृत्य^० - स्यम् बौश्रौ २, ५: १४.

अकार्य-स्व- -स्वात् मीस् ६, ७, ४; ९, २, १०; ३, १; १०, २, ६६; ३, ७.
 अकार्य-शत- -तम् वाध २७, १.
 १अ-काल- ३अ-द्र.
 २अ-काल^० - लात् पा ६, २, ३२; ३, १८; -ले माश्रौ २, १, २, ३८; ३, १, ७; ५, २, १५, १४; कागृउ ४१: २२; अप ६७, ४, ३; ६९, २, १; ७०^३, ११, ५; ७१, २, १; ३, २; १५, १; २; वाध ८, ८; पा ६, ३, ८१; -लेन अप २९, १, ६.
 आकालिक- -कः अप ७०^३, ३, ३.
 अकाल-ज^० - जम् अप ७०^३, २३, ४^३.
 अकाल-पुष्प-प्रसव^० - वः अप ६४, ३, ६.
 अकाल-प्रसू- -सुवः अप ७०^३, १०, २.
 अकाल-वर्ष^० - र्षः अप ७०^३, १७, ३.
 अकाल-वर्ष-विद्युत्-स्तनित^० - तेषु विध ३०, ८.
 अकाल-संभ(व>)वा^० - वाः अप ७०^३, २३, ४.
 अकालीन^० - नम् अप ७०^३, ७, २३.
 अ-काल-नियम- -मः वाध ११, ४४.
 अ-काल-व्यपेत^० - तम् पावा १, ४, १०९.
 अ-काल-शब्द- -ब्दात् काश्रौ २५,

१, २.
 अ-कापाय^० - यम् कौस् ५७, १५.
 अ-किञ्चित्^० - -त्ते पा ३, ३, १४५; . पावा १, ३, १०.
 अकिञ्चित्-ग्रहणा (ण-आ) नर्थक्य- -क्यम् पावा ३, ३, १४५.
 अ-किञ्चन (>अकिञ्चन-ता-, अकिञ्चन-त्व, अकिञ्चनिमन्- पा.) पाग २, १, ७२; ५, १, १२२.
 अ-किलासिन्^० - सिनम् बौश्रौ २, ३: ८.
 अ-किलिन्^० - नम् गोगृ ४, ७, ८.
 अ-कीर्तित- -तम् पावा १, ४, ५१.
 अ-कुटिल- -लाः विध २७, २४.
 अ-कु(तस्>)तो-भय- पाग २, १, ७२.
 अ-कुत्र > प्रा^० ऋषा ८, १५.
 अ-कुत्सयत्- -यन् बौध २, ७, ६.
 अ-कुनखिन्- -खिनम् बौश्रौ २, ३: ७.
 अ-कुपरण^० - णस्य या ४, १८.
 अ-कुर्वत्- -र्वताम्^० बौध १, २, ५०; -र्वति पावा १, ४, ५४^३; -र्वते^० वाध २, १२; -र्वस्तु काश्रौ ९, ५, १४; -र्वन् माश्रौ १, १, ३, ६; २, २, २, २५; शांगृ २, १२, ६; द्रागृ २, १, ३; हिपि १७: ६; कप्र २, २, ११; बौध १, ५, १५; २, ३, २१; -र्वन्तः बौश्रौ ६, २५: २३; २७: २६; निस् ८, ७, २५; -र्वन्तम् वैगृ २, ८: १०.
 अ-कुर्वाण- -णः विध ७६, २.

a) संधि-विशेषयोः द्वस. । b) विप. । तस. > बस. । c) तस. । वा. क्वि. द्र. । d) बस. । e) नाप. तस. । f) भाप. । 'काम' इति लैवि. पाठः शोभाहः । g) विप. । उस. । h) सस. > षस. । i) सस. > द्वस. । j) विप. । बस. । k) विप. (फलपुष्पयोः] दर्शन-) । तान्रभविकः लः प्र. डसं. (पा ४, ३, ११) । l) 'व्यवैतम् इति गुसं. [पाम.] पाभे. । m) विप. । तस. । n) तस. > षस. । o) विप. (भू-प्रदेश-) । तस. । उप. = सजल- । p) वैप १, परि. च द्र. । q) विप. । तस. । उप. = कुत्सित-पूरण- इति स्क. दु. । अकृ इति स्क. ल. च, 'पर्णस्य इत्यपि क्वचित्कः मूको. । r) सपा. 'र्वताम् < > 'र्वते इति पाभे. ।

अ-कुलं-कुल^१- लः कौगृ ३, ११,
१०.

अ-कुल-ता- ताम् बौध १, ५, ८३;
८४.

अ-कुलीन, ना- नाः विध ५, १४;
-नाम् विध २४, ११.

अकुलीन-राज-कुल^२- लात् विध
३, ४९.

अ-कुशल- लः आपश्रौ २१, १२,
११; हिश्रौ १६, ४ : ३४;
निसू ५, ७ : ४ : -लम्^३ बौश्री
२४, १२ : १; २५, ४ : २; कौसू
१३, ७; अप ६८, २, ४५; निसू ३,
४ : १२; -लाः द्राश्रौ ३, ३, १०.

अकुशला(ल-अ)नुव्याहृत^४- तान्
निसू ६, १२ : १३.

अकौशल-, शल्य-, अकौशल-,
शल्य- पा ७, ३, ३०.

अ-कुश(ल>)ली^५- ली बौश्री २२,
११ : ८.

अ-कुष्ठि-पृषत्^६- षत् आगृ ४, ८, ४.

अकुह-अकुहविसर्जनीय- ३अ-द्र.

अ-कूजन- ने पावा १, ३, २१.

१अ-कूट, टा^७- टः हिश्रौ ४, ३, १;
-टया आपश्रौ १०, २२, ३; -टा
भाश्रौ १०, १४, १९; १७, १२.

२अ-कूट^८- टे विध ५, १२३.

अ-कूप-तोय- येन आमिगृ १, ७,
४ : ४.

अ-कूपार^९- रः या ४, १८; अप्रा ३,
४, ११; -रस्य अप ४८, ११५;
निघ ४, १; ण्या ४, १८६.

आकूपार^१- रम् जैश्रीप ६; द्राश्री ८,
२, ३; लाश्री ४, ६, ३; क्षुसू २,
४ : १३; ५ : १३; ३, ८ :
६; ९ : १५; निसू २, २ : १८;
८, १३ : ३७; ३९; ४१; ९, १ :
५४; -रात् लुसू २, ४ : १७.
आकूपार-श्रीश्रौ^१- श्रे लाश्री ७,
२, १.

अ-कूर्म-पृषन्त^१- न्तम् आपश्रौ २,
११, ३; भाश्री २, ११, ४; हिश्री
१, ८, २८.

अ-कूल^१- ले जैगृ २, ५ : ५.

अ-कृच्छ्र- श्रे पा ८, १, १३.

अकृच्छ्रन्- च्छ्रणि पा ३, २,
१३०.

अ-कृण्वत्- ण्वतः बौश्री ११, ४ :
१७; १५, २८ : २८; -ण्वन्तम्
बौश्री ४, ६ : ३३.

अ-कृत्- कृता पा २, २, ७; -कृति
शुप्रा ६, ५.

अकृत-पद^३- दे पा ६, २, १९१.

अ-कृत, ता- तः निसू ९, १३ : २०;
शांगृ ५, ४, १; -तम् आश्री ७,
४, ६; काश्री ५, ४, २०; २६,
४, १३; बौश्री २०, २३ : १०;
१४; २५, १० : २२; द्राश्री ४,
१, ११; लाश्री २, १, १०; लुसू
३, १० : ४६; निसू २,
१३ : ३; ८, १३ : ३; १०, ३ :
४३; गोगृ १, ३, ७; द्रागृ १,
५, १०; कप्र १, ८, ५; ३, ५, २;
३; अप्राय १, २; बाध १२, ३;

विध ८, ४०; २०, ४१; -तस्य
आपश्रौ २१, २०, ३१; भाश्री
३, १८, १०; हिश्री १६, ६,
४१; निसू ९, ५ : ७; गोगृ १,
३, ६; ९, ७; -ताः निसू ४, ६ :
५; -ताम् विध ६, ४; -ताय
काश्री २, २, २१; वाश्री १,
१, ४, २१; -तासु आपश्री
१६, १३, २; हिश्री ११, ५, १३;
-ते काश्री २५, १३, २१; -लाश्री
१०, ११, १३; अप ७०^१, ३२,
३४; विध २२, ६२; पावा १,
२, ९; -तेन निसू ५, १० : ८; १०;
१३; ९, ७ : ९; -तेषु वैश्री २१,
११ : १; आमिगृ २, ६, ५ : ४;
बौगृ २, ९, ९; भागृ ३, १५ : १४.
१अकृत-कार^१- राय निसू ४, ६ : ४.
अकृतकारा(र-अ)^१- र्थः निसू
४, ९ : २४.

अकृत-कारम् पा ३, ४, ३६.

अकृत-क्रि(य>)या^१- याः लाश्री
१०, ७, १४.

अकृत-चू(डा>)ड^१- डे विध २२,
२९.

अकृत-जातकर्मन्^१- र्मा शांगृ ५,
७, २.

अकृत-त्व- त्वात् काश्री २०, ४, ६;
मीसू ५, १, १०.

अकृत-प्रातरा(र-अ)श^१- शः
आपध १, ११, २३; हिध १, ३,
७३.

अकृत-प्रायश्चित्त^१- ताः विध ४२,

a) सपा. अकुलं <> न कुलं इति पाठे. । b) कस. । c) क्वचित् वा. क्वि. । d) बस. ।

e) विप. (पत्नी-) । f) विप. (पशु-) । तस. उप. द्रस. । g) वैप १, परि च द्र. । h) तस. । उप. ।
=असत्य. । i) नाप. (साम-विशेष-) । दृष्टार्थे अण् प्र. (पा ४, २, ७) । j) साम-विशेषयोः द्रस. । k) = [निपति-
तविन्दुरहिता-] भूमि- । बस. उप. सस. (कूर्मे [तदाधारतया औपचारिक- भूमि-] पृषन्त- [=पृषत्-]; वैतु. खदतः षत्-
इति प्राति.) । वा. क्वि. । l) नाप. (कूलातिरिक्त-प्रदेश-) । तस. । m) द्रस. । n) अकृतः कृतस्य इति
पाठः ? यनि. शोधः (तुः आपश्री) । o) तस. उप. अन्तम् । p) विप. (बाल-) । बस. । उप. =संस्कार-विशेष- ।

२३; -तेषु अप ७२, ४, ३. अकृत-लक्षण-चोदन ^a - नात् लाश्रौ ७, ११, १८. अकृत-वपन ^b - नाय अप ४०, १, २. अकृत-संहित ^c - तानाम् ऋप्रा ४, २०. अकृत-संकल्प-संभव ^d - वा: अप- ६८, १, ५२. अकृत-संधि ^e - धीनाम् पावा ५, ३, ८४; -धे: पावा ५, २, १००. अकृत-सीम(न्त >)न्ता ^f - न्तायाम् आग्निगृ २, ७, ४: २; बौध ४, ११, १. अकृत-सीमन्तो(न्त-उ)न्यन ^g - ने शांगृ ५, ७, १. अकृता(त-अ)ग्नि-संसर्ग ^h - नो बौध ४, ११, १. अकृता(त-अ)न्य ⁱ - न्यम् विध ४४, ३४. अकृतान्य-आद्विक-संयोग ^j - नो गौध १६, ४९. अकृतो(त-उ)दक ^k - का: वाध ११, २१. अ-कृतकार ^l - रम् निसू ३, ११: ५. अ-कृत-मित-प्रतिपन्न ^m - न्ना: पा ६, २, १७०. अ-कृता(त-अ)र्घ्य ⁿ - र्घ्या: कौगृ ३, १०, ३४; शांगृ २, १५, १०; पागृ १, ३, ३१. अ-कृत-तद्धित ^o - ते पावा १, ३, ३. अ-कृत्रिम-त्व - स्वात् पावा १, १,	२३. अ-कृत्वा आपश्रौ ९, १४, ५; ६१; १०, २, ७१; माश्रौ १०, २, १४; हिश्रौ १५, ४, १३१; निसू ३, १: ९; १३; ७, १३: १८; ८, ७: २८; आग्निगृ २, ७, ४: २; कागृ १, ३२; अप ४२, २, ६; वाध ४, ७; शंघ २९४; ३९१; ४४०; आपध १, २५, ११; बौध १, २, ५७१; विध २८, ५२; ५०, २१; ५१, ७१; ६४, २६; हिध १, ७, ७; गौध २३, २०. अ-कृत-सार्वधातुक - कयो: पा ७, ४, २५. अ-कृत्स्न, त्स्ना - त्स्नम् आश्रौ १०, ५, १९; वाध १५, १२; त्स्ना ऋप्रा १४, ६८. अकृत्स्न-त्व - स्वात् आश्रौ ८, १३, ३२; पावा २, १, ५८; ६, ३, १८. अकृत्स्न-संस्थ ^k - स्थानाम् माश्रौ २, २, १, २३. अ-कृत्स्न-संयोग ^l - गात् मीसू १०, ६, १८. अ-कृत्स्न-सिद्ध ^m - द्ध: ऋप्रा ११, ६६. अ-कृध्वा(धु-आ)युस् ⁿ - यु: या ६, ३. अ-कृन्तत् - न्तत् पागृ ३, ३, ६०. अ-कृमि-परिसू(त् >)प्ता ^o - साम् गोगृ २, ६, ६; द्रागृ २, २, २०.	अ-कृ(पि >)षी-व(ल >)ला ^p - -लाम् ऋप्रा ९, ११. अ-कृष्ट ^q - ष्टम् पागृ, २, १३, ६; वाध ९, ४; -ष्टा: ऋप्रा २, ९, ८६; साअ २, २३६; ३८१; -ष्टे आपश्रौ १६, १९, १०; १४; वैश्रौ १८, १६: २०; हिश्रौ ११, ६, ४४; ४६. अकृष्ट-फल ^r - लानि वैध १, ७, ३. अ-कृष्ण, ष्णा ^s - ष्णाम् काश्रौ १५, २, २१; २२, ४, १५; -ष्णा: बौश्रौ २३, ७: ६; वैश्रौ १८, ११: २४. अ-कृतस, सा ^t - सम् बौश्रौ २६, ३३: २४; -प्ता: बौश्रौ १४, १७: २२१. अ-केतु ^u - त्वे आपश्रौ २०, १६, ३; बौश्रौ १५, २४: ५; हिश्रौ १४, ३, २६; जैगृ २, ९: ३२. अ-केवल, ला - लामि: कागृ २५, ४१; -ले पा ६, २, ९६. अ-कोप - पात् मीसू १०, ३, ४३. अ-कौद्रेय ^v - यम् काश्रौ १०, २, २०. अकौशल - शल्य - अकुशल द. अकृत् - अच्, ष्च् द. अकृत् - प्रभृ., अकु-, अक्त्वा √अञ्च् द. अकृत् - अच्, ष्च् द. अ-कृोपन ^w - न: या ७, १४. अ-कृ ^x - ऋ: आपश्रौ ५, ६, ३; हिश्रौ ३, २, ५६; विध ४, ३; ष्या ६, १७१.
---	---	---

a) बस. > तस. । b) विप. । बम. । c) विप. (ऊष्मान्त-वर्ण-). । बस. । d) विप. (स्वप्न-). । कस. > बस. । e) विप. (भार्या-). । बस. । उप. = संस्कार-विशेष- । f) कस. > षस. । g) = असिद्धाऽन्त- । कस. । h) विप. (प्रन्थ-पर्याय-ब्राह्मण-). । बस. । i) तस. > द्वस. । j) विप. (आचार्य-प्रभृति-). । तस. > बस. । k) विप. (पात्र-?). । बस. । उप. = संस्था- । l) तस. > सस. । m) विप. (कम-). । तस. > कस. । n) = दीर्घायुस्- । बस. । o) सप्र. आगृ २, ४, १४ अभयम् इति पाठे. । p) विप. (न्यग्रोध-शुद्धि-). । तस. > तृस. । q) वैप १, परि. च द. । r) विप. (भू-भाग-, मूल-फल-), व्यप. (ऋषिगण-विशेष-। ऋष., साअ.) । तस. । s) आ इति साअ(अ ९, ८६) । t) -सस. । पूफ. = अकृष्ट-भूमि- । u) विप. । तस. । v) तस. । उप. < कुट्टि- ।

अ-कृत^a- तु कागृ ४४, ४.
 अ-कृत-युक्त^b- -कालाम् मीसू १०,
 ८, १३.
 अ-कृत-दोष^c- -वः मीसू ६, ८, १.
 अ-कृत-संयुक्त, का^d- -काः हिश्रौ
 १०, ७, २७; -काम् आपश्रौ
 १०, १४, ३.
 अ-कृतत्व(तु-अ)र्थ^e- -थेन मीसू ६,
 ७, १३.
 अ-क्रम^f- -मः काश्रौ १६, ५, १२;
 माशि १०, २.
 अ-कृतव्या(व्य-अ)द्ध^g- --व्यात् कौसू
 ६९, ८; ७१, ८; अज १२, २;
 अप ३, २०; अत्रा ३, १, १७.
 अ-कृतव्याद-मृग-वध^h- -धे विध
 ५०, ४१.
 अ-कृतव्या(व्य-आ)हुति- -तिः,
 -तिम् कौसू ७२, ३२.
 अ-क्रान्त- -न्तैः द्राश्रौ ६, १, १६;
 लाश्रौ २, ९, १२.
 अक्रान्तो(न्त-ऊ)ष्म-प्रत्यया(य-
 अ)भावⁱ- -वम् ऋप्रा ६, ५२.
 अक्रि ✓कृ द्र.
 अ-क्रि(या>)य^j- -यम् ऋगृ ३,
 १३, ९.
 अ-क्रियमाण- पाग ६, २, १६०^k;
 -णयोः शाश्रौ ११, १४, २;
 -णस्य आश्रौ ७, ३, ११; ५, ७;
 -णे आपश्रौ १४, ३४, ५; हिश्रौ
 १५, ८, ४८.
 अ-क्रिया- -या काश्रौ ६, ७, २६; कप्र
 १, ३, १^l; ६; गौध १९, ३; मीसू

१०, १, ५०; -याम् आश्रौ
 ५, १३, ९; -यायाम् कप्र १,
 ३, ६.
 अ-क्रिया-प्रबन्धा(न्ध-अ)र्थ^m-
 -र्थम् पावा ३, ३, १३६.
 अ-क्रीणात्- -णतः विध ५, १२९.
 अ-क्रीतⁿ- -तम् आपश्रौ १४, २४,
 ९; बौश्रौ १४, २९; १५; हिश्रौ
 १५, ६, १२.
 अक्रीत-पण्य- -ण्यैः आपध १,
 २०, १६; हिध १, ६, ३०.
 अक्रीत-राजक^o- -कः आपध १, १८,
 २३; हिध १, ५, ९२.
 अक्रीत-सोम- -सम् अप्राय ६, ४.
 अ-क्रीयमाण- पाग ६, २, १६०.^k
 अ-कृद्ध- -द्धः अप २०, ५, ६.
 अ-कूर^p- -रः या २, २^q.
 अकूर-वर्ग- >अकूरवर्गिण-, अकूर-
 वर्ग्य- पावा ४, २, १०४.
 अ-क्रोध- -धः वाध ४, ४; आपध
 १, २३, ६; हिध १, ६, १४; गौध
 १०, ५१; -धम् वाध ११, ३५.
 अ-क्रोधन^r- -नः आमिगृ २, ७, ११;
 ६; आपध १, ३, २३; हिध १, १,
 ९६.
 अ-क्लिन्न-वासस्^s- -साः आगृ ३,
 २, २; आमिगृ २, ६, ४: २.
 अ-क्लिष्ट- -ष्टानि आमिगृ २, ५, ६:
 १३; ६, २: २४; बौध १, ६, ५.
 अ-क्लेद्य- -द्यः विध २०, ५२.
 ✓अक्ष(वधा.)^t, भ्वा. पर. व्याप्तौ;
 अक्षिषुः मागृ २, १६, ३^u; या

४, १३.

अक्ष^v- पाउ ३, ६५; -क्षाः वृदे
 १, ११०; गुअ १, ६२९; ६३३;
 निघ ५, ३; या ९, ७^w;
 -क्षणाम् बौश्रौ २२, १९: १०;
 -क्षान् काश्रौ १५, ७, ५; १६;
 आपश्रौ ५, १९, २: ४; १८, १८,
 १६; १९, ५^x; बौश्रौ २, ८: २५;
 ९: १९; २०; १२, १५: १४;
 १५: १९; १६: ८; २२, १९: १३;
 भाश्रौ ५, १२, ५: ६; माश्रौ १, ५,
 ५, ७; ९; १०; १२; वाश्रौ १, ४,
 ३, ३३; ४, ११; १३; ३, ३, २, ६;
 २८; वैश्रौ १, १४: १९; १५: २;
 हिश्रौ ३, ५, ३; ६; ६, ५, १७;
 १३, ६, २८-३०; द्राश्रौ १२,
 २, २१; लाश्रौ ४, १०, २२;
 वैताश्रौ ६, १०; आपध १८, १;
 भागृ २, ७: ३; हिगृ २, ७,
 २; कौसू १७, १७; ४१, १३;
 आपध २, २५, १२; हिध २, ५,
 १९१; वृदे ७, ३^y; या ३, १६;
 -क्षेषु आपश्रौ ५, १९, २; बौश्रौ
 १२, १५: १६; भाश्रौ ५, १२, ५;
 हिश्रौ ३, ५, ३; आपध १८, १;
 भागृ २, ७: ३; ५; हिगृ २, ७,
 २; कौसू ६३, १^z; १३९, १५^{aa};
 अप ३२, १, १०^{ab}; विध ६५,
 ७^{ac}; पा ३, ३, ७०; -क्षैः
 वाधुश्रौ ४, ५९: ९-११; वैध ३,
 ३, १; अक्ष ४, ३८^{ad}; वृदे १,
 ५२^{ae}; या ३, ५^{af}.

a) बस. । वा. क्वि. । b) विप. । तस. > नृस. । c) तस. > षस. । d) विप. । तस. > बस. ।

e) तस. । f) वैप १, परि. च द्र. । g) तस. > उस. > कस. > षस. । h) बस. > कस. > षस. । i) विप.

(२ब्रह्मन्-). बस. । j) सपा. अक्रिय^o (पाका. पासि.) <> अक्रीय^o (BPG. भारुडा.) इति पाभे. । k) विप.

(अक्रीतसोम-] दीक्षित-). बस. समासान्तः कप् प्र. । l) व्यप. (यादव-विशेष-). m) विप. । तस. । n) पा ३,

१, ७५ पट्ट. द्र. । वैप १, ९६ द्र. । एकतरत्र अस्तुषु इति पाठः? यनि. शोचः (तु. KLI.) । o) नाप. (पाशक-). ।

vैप. १, परि. च द्र. । p) अक्षे इति पाठः? यनि. शोचः । q) अक्षेण इति ल. ।

१भाक्षिक^० - कम् वाघ १६, ३१.
 अक्ष-कितव-निन्दा^० - न्दा ऋग्र २, १०, ३४.
 अक्ष-कृषि-प्रशांसा^० - सा ऋग्र २, १०, ३४.
 अक्ष-धूत^० - (> आक्षधूतिक-पा.) पाग ४, ४, १९.
 अक्षधूता (त-आ)दि^० - दिभ्यः पा ४, ४, १९.
 अक्ष-धूर्त^० - र्तस्य अप ४८, १२९.
 अक्ष-परि^० - पा २, १, १०.
 अक्ष-परिचून^० - नस्य या ९, ८.
 अक्ष-प्रभृति^० - तीनि या ७, ७.
 अक्ष-वृत्त - त्तम् वाश्री ३, २, ८, ३१.
 अक्ष-शलाका-संख्या - ख्याः पा २, १, १०.
 अक्ष-शील^० - लः आपघ २, १६, १३; हिघ २, ५, १३.
 अक्ष-संस्तुति - तौ वृदे १, ५२.
 अक्ष-सूक्त - क्ते या ७, ३.
 अक्ष-स्तुति - तितः वृदे ७, ३६.
 अक्ष-हृत - तः आपश्री २२, ६, ८; हिश्री १७, २, ५३.
 १अक्षा(क्ष-आ)दि^० - दयः पावा २, १, १०.
 अक्षा(क्ष-अ)भिहोम^० - भम् द्राश्री १२, ४, १८; लाश्री ४, १२, १३.
 अक्षा(क्ष-आ)वपण^० - गम्

काश्री १५, ३, १८.
 अक्षा(क्ष-आ)वाप^० - पः आपश्री १८, १८, १६; -पस्य आपश्री १८, १०, २०; बौश्री १२, ५ : ३०; हिश्री १३, ४, १०; -पाय आपश्री १८, १८, १५; वाश्री ३, ३, २२; हिश्री १३, ६, २७.
 अक्षावाप-गोविकर्त-गृह^० - हेभ्यः काश्री १५, ३, १२.
 अक्षावाप-गोभ्यच्छ^१ - च्छाभ्याम् बौश्री १२, १५ : १३.
 २अक्ष^१ - क्षः बौश्री ६, २५ : ३; १०, १७ : ९; माश्री २, २, २, २०; हिश्री ७, ५, ७; ऋआगृ २, ६, २; ७; वागृ १५, १३^६; काशु २, ३; बौशु १ : ५; हिशु २, ३८; या १३, १२^६; -क्षम् आश्री ६, ५, ३; काश्री ९, २, १६^३; २०; १४, २, ७; काठश्री १२४; बौश्री १४, ३ : ३; १६, ९ : २; माश्री २, ३, ४, १९^३; वैश्री १५, ३ : ४; ७; १४ : २; ३३ : ८; १६, २ : ४; जैश्री ८ : १८; २१; ९ : ३^३; जैश्रीका ९७; द्राश्री ३, १, २०; लाश्री १, ९, २२; बौग ४, ४, ५; -क्षस्य जैश्रीका ९४; निसू २, ४ : १७; कागृ २६, ३^१; फि ३५; -क्षात् काश्री ९, २, २२; बौश्री १२, ८ : ३; -क्षे काश्री १६, ६, २०; बौश्री ६, २४ : १५; -क्षौ अप २३, ५, १.

अक्ष-घोष - षः वैश्री १४, ५ : १९^१.
 अक्ष-धुर^१ - धुरः बौश्री २१, १४ : २४; २५; माश्री २, ३, २, ३६; -धुरम् आपश्री ११, ६, ५; बौश्री ६, २४ : ३०; ३८; १४, ३ : ४; वैश्री १४, ५ : १५; हिश्री ७, ५, २; -धुरौ काश्री ८, ३, २८; माश्री २, २, २, १५; शुअ १, ३२०.
 अक्ष-पालि - लिम् बौश्री १, ५ : १; २०, ५ : ३०.
 अक्ष-बन्ध - न्धान् वैश्री १४, ५ : १०.
 अक्ष-भङ्ग - ङ्गे गोग २, ४, ३.
 अक्षभङ्गा (ङ्ग-आ) दि-वि-पद्^३ - पदि कप्र १, ८, २४.
 अक्ष-भजन - ने काघ २७६ : १२.
 अक्ष-भेद - दः बौग ४, ४, ३; -दे पाग १, १०, १.
 अक्ष-मा(त्र>)श्री^० - श्री भाश्री ७, २, १८.
 अक्ष-विष्कम्भ^० - भ्नी काठश्री १२४; द्राश्री ३, १, २१; लाश्री १, ९, २३.
 अक्ष-वेला^० - लायाम् शाश्री १०, २१, १४.
 अक्ष-शब्द - द्दः आपश्री ११, ६, १२; -ब्दम् आपश्री १६, १२, ७; हिश्री ११, ५, ४.
 अक्ष-शिरस् - रसः आश्री ५,

a) तेन दीव्यतीत्यर्थे ठक् प्र. (पा ४, ४, २)। b) द्वस. > तस.। c) तस.। d) बस.। e) 'अक्षेय विपरीतं वृत्तम्' इति अस.। वा. क्वि. द्र.। f) विप. (अक्षि-)। त्स.। उप. परि ✓ दिव् + कर्तरि क्तः प्र. इति। g) कास.। उप. अधिकरणे ल्युट्। h) नाप. (कितव-)। वैप१, परि. च द्र.। i) द्वस. उप. = गो-विकर्त- (द्र. वैप १)। j) नाप. (रथाङ्ग-विशेष-)। < ✓ अक्ष इति या. रू. च। k) 'क्षा इति पाठः ? यनि. शोषः (द्र. माग १, १३, १७)। l) नाप.। m) बस. > कस.। n) विप. (वेदि-)। रथाक्षः = १०४ अक्षुल्यात्मक-प्रमाणो भवति तेन तद्वतीत्यर्थः। o) द्वस.। p) नाप. (अक्ष-प्रदेश-)।

१२,३.

अक्ष-संमि(त)ता^a - ता
आपश्रौ ७,३,८.

२^oअक्षा (क्ष-आ) दि- -ङीनाम्
पावा ६,१,१२५.

अक्षा(क्ष-अ)धिष्ठान- -ने आगृ
२,६,२.

अक्षा(क्ष-अ)नति-क्रमण- -णम्
काश्रौ १४,२,६.

अ(क्ष)क्षान-ह^b - -नहः ऋप्रा
९,१०^०.

अक्षो(क्ष-उ)पाञ्जन- -नाय भाश्रौ
१०,१५,१९; -ने काश्रौ ८, ६,
३१.

३अक्ष- पाग ५, १, ५०^०; -क्षः
ऋअ २,१०,३४^d; -क्षात् पावा
६,१,८८^०.

२आक्षिक्^c - पा ५,१,५०.

अक्ष-ताल्ल (लु-ःऊ)षक-श्रोणि-
फलक^e - -केषु विध ९६,६७^h.

अक्ष-भार- (>आक्षभारिक्^f -
पा.) पाग ५,१,५०.

अक्ष-माला^g - -लाम् शंघ १०७;
-लायाम् अप ४१, ४, ५.

अक्षा(क्ष-अ)र्ध^h - -धम् विध ४,
९ⁱ.

अक्षो(क्ष-उ)क्त^k - -क्तः निसू ७,
४:४९^l.

अक्षौ(क्ष-ऊ)हिणी^m - -णी ऋत
३,४,६; पावा ६,१,८८.

अक्षन्ⁿ - -ःक्षमिः आपश्रौ १०,३,
२; १४,१६, १; भाश्रौ १०,१३,

३; हिश्रौ १५,५,१; मागृ १, १,
२०; अप्राय ६,१; -क्षणः बौश्रौ
६, १२: १५^०; पा ५, ४, ७६;
पावा ५,४,१०७; -क्षण बौश्रौ
१०,३३: २०; २२; २३; वैश्रौ
१८, १९: १६; जैश्रौका १९०;
१९१; -क्षणोः माश्रौ १, ३, ४,
२३^०; ५, २, १५, २०^०; वैश्रौ
१८, १९: ७; हिश्रौ २४, ६,
१२; वैताश्रौ ३, १४^०; पागृ १,
३, २५^०; आप्तिगृ ३, ५, ६:
२७; ७: २; बौपि १, ५: १३;
१६; ३, ३, ५; १२; मागृ
२, १४, २६^०; वैगृ ५, ४: ७;
हिपि ६: १; माशि १३, १.

०अक्ष (न् >) ण-वत्^b - -वते
तैप्रा १३, १३; भाशि ६३;
-ण्वन्तः या १,९^०; -ण्वान्
या ५,१; १४,२०.

अक्षर, रा^q - पाउ ३, ७०; पाग ५,
१,२; -०र विध १, ५७; -रम्
आश्रौ ५,४, ८; ६, ३, १०; ७,
११,५; बौश्रौ १९,१०: २८^०;
माश्रौ ५, १, १, १२; द्राश्रौ ६,
१, १६; लाश्रौ २, ९, १२; ७,
९, ४; ११, ६; निसू १, १:
२३; ७: २८; २, ९: ३३;
१०: ८; ९; १३; १८; २४;
३, ४: ६; आप्तिगृ २, ६, ८:
२१^०; अप ४१, ५, ४ⁱ; ४७,
२, ६; ७; ४८, ७५; १०२;
बौध १, ४, ८; विध ५५, १२;

१८^०; ९७, १२; १३; वैध ३, ७,
१३; ऋअ २, १, १६४^०; वृदे
१,६२; अअ ८, १; निघ १,११;
१२; या १११, ४१^०; १३,
१०^०; ११^०; १२^०; १४,१०; १३;
१४; ऋप्रा २, ३५; ३, ६; ७; ९;
११; २०; ५, ५५; ८, ३६; ३९;
११, ५४; ५६; १७, ३९; १८,
३२; ३४; ३७; शुप्रा १, ९९; ८,
४४; ४७; तैप्रा २०, २; ऋत २,
५, ६; शौच १, १४; ९३; माशि
७, ५; ९, ४; १०, ७; आशि १, २;
शैशि १९४; २०६; याशि १,
७३; ९१; २, २५; ६९; ८९;
नाशि २, १, १; १०; २, ११; १४;
३, ६; उसू ९, २; पाप्रवा ८, १^०;
-रयोः शांश्रौ १०, ५, १०; १४;
१२, १३, १; १६, २; २४, ४;
निसू ३, १२: २६; -रस्य आपश्रौ
२४, १४, १; निसू २, १०: २०;
या १३, ९; ऋप्रा ११, ५२; -रा:
अप ४८, ७५; -राणाम् आपश्रौ
१२, १५, ६^०; हिश्रौ ८, ४,
२१^०; ऋप्रा ३, २४; ५, २४;
शुप्रा ४, १३२; नाशि २, ४, १;
७, २; -राणि शांश्रौ १, २, ६;
आपश्रौ १९, २२, १४; बौश्रौ
१४, १०: ५; ११; माश्रौ ५,
१, ९, २२; वाधूश्रौ ४, २६: ८;
१०; १२; ५३: ५; ५८: ३; ४;
७०: १०; ८९: ५; ६; ७; १३;
१४; १६; १७; ११: ३; ९७: २;

a) विप. (वेदि-)। b) वैप१, परि. च द्र. ७ c) अर्थः?। d) व्यप. (ऋषि-विशेष-)। e) नाप. (संख्या-परिमाण-विशेष-)। f) नाप. (अक्षभार-वाहिन-)। g) द्रस.। h) अक्ष- =नेत्रकरणयोर्मध्यगत-शङ्खाड्योभाग-। i) नाप. पूप. =द्व्याक्ष-। j) तस.। पूप. =कर्ष- (=१६ माषक-परिमित-मान-विशेष-)। k) विप. (अर्क-)। लुस.। पूप. =ऋषि-विशेष-। l) ?अङ्गोक्तः इति संस्कृतेः टि.। m) नाप. ([दशाडनीकिनीवती-] सेना-)। उप. =वाहिनी-। पूप. अर्थः?। n) =अक्षि-। वैप १, ११h द्र.। o) पाभे. वैप १ परि. अक्षयोः तै ३,२,५,४ टि.। p) पाभे. वैप १ परि. अक्षयोः तै ५,५,९,२ टि. द्र. q) विप. पुं. स्त्री. (विष्णुः, यायत्री-)। नाप. नः।

३; ९८ : ४; १०५ : २; ११५ :
 ८^३; ९; हिश्रौ २२, ४, १७; द्राश्रौ
 ३, ४, २५; ९, ३, २०; लाश्रौ १,
 १२, ११; ३, ७, ७; ७, ११, ६; ८;
 १२, ९१; १०१; १३, ११;
 छसू १, २ : १५; १७; ४ : ३४;
 ९ : ९; २२; २, ३ : २०; निसू २,
 १० : २०; ११ : ३२; ३, ४ :
 २४; ८, ५ : ३०; अप ३४, १,
 १; ४१, ५, ७; ऋप्रा १, १९; १६,
 १२; ६४; १७, २१; नाशि २,
 २, ५; ७, ८; -रात् वाधूश्रौ ४,
 ३१ : २; याशि १, १०; ५९; २,
 ४४; नाशि २, ३, ९^३; मासू २,
 १८; -रे वाश्रौ १०, ५, १२; १२,
 १३, ५; काश्रौ १९, ७, ६; लाश्रौ
 ७, १२, ६; १३, ३; ५; लुसू
 २, ५ : २१; निसू ३, ४ : ३०; ५ :
 १७; १८; ७ : १०; १२; वाध
 ६, ५; या १३, १०^३; माशि
 ७, ८; -०रे मायू १, २, २^७;
 -रेण वाधूश्रौ ४, ११३ : ६;
 द्राश्रौ ३, ४, ५; ६, २, १८^१;
 लाश्रौ १, ११, २६; २, १०, १८^१;
 निसू १, ६ : २; २, १० : ६; १२;
 ३, ४ : ६; अप ४७, २, ८; बौध
 २, ७, १३; वैध १, ११, १३;
 -१रेभ्यः लाश्रौ ७, १२, ९; १३,
 ५; -रेषु निसू ६, ७ : ५१; -रैः
 बौश्रौ १६, ६ : १६; निसू १, ६ :
 ७; ७ : ३३; ऋअ २, १, १२०;
 १०, ९३; मँअ ७; ऋप्रा १६,
 ३२; १७, ४.
 अक्षर-क्रम- -मम् निसू ३, ५ :
 २४; -मस्य निसू ३, ५ : २१.

अक्षर-चिन्तक- -कम् माशि १५,
 १; -काः माशि ६, १; १४, १; ६;
 -कैः नाशि २, ६, ७.
 अक्षर-ज्ञ- -ज्ञः माशि ३, ७.
 अक्षर-णि (<नि) धन^०- -नम्
 निसू ५, ९ : १६; ८, ५ : ३३;
 -नानाम् निसू ६, ३ : ७.
 अक्षर-दैवत^०- -तम् अ ४१, ५,
 ६.
 अक्षर-द्वय- -ये शैशि ४९.
 अक्षर-पङ्क्ति^०- -ङ्क्तयः शाश्रौ
 ८, ६, ११; बौश्रौ २४, १९ : ६;
 निसू १, ३ : २२; ऋप्रा १७,
 ५०; उनिसू ५. ६; -ङ्क्तिः
 शाश्रौ ७, २७, २४; अअ १५,
 १३; उनिसू १ : ५०; पि ३,
 ४४; -ङ्क्तीः आपश्रौ १७, ४,
 १०; बौश्रौ १०, ४५ : १९; वैश्रौ
 १९, ५ : ८; हिश्रौ १२, १, ४१;
 -ङ्क्तीनाम् शाश्रौ ७, २६, ४; ८,
 ७, १५; १४, ५७, १०; -ङ्क्तयः
 आपश्रौ ५, २८, १५; -ङ्क्तया
 हिश्रौ १२, ५, ११.
 १अक्षर-परिमाण^१- -णम् लाश्रौ
 ७, ९, ६; ऋअ १, २, ६.
 २अक्षर-परिमा(ण >)णा^०- -णाः
 उनिसू ६ : २९.
 अक्षर-प्रवाद^१- -दः निसू ३, ४ :
 ४; -देन निसू ८, ६ : ५५.
 अक्षर-मान-शस् (:) नाशि २,
 ६, १.
 अक्षर-रूप^१- -पाणि निसू ८, ५ :
 २५.
 अक्षर-वर्ण^३- -र्णयोः ऋप्रा ११,
 ५८.

अक्षरवर्ण-सामान्य- -न्यात्
 या २, १.
 अक्षर-विकर्म^१- -मे निसू ८, ६ :
 ५४.
 अक्षर-विधि- -धौ बृदे १, ४२.
 अक्षर-विवृद्धि- -द्धिः उनिसू ३ :
 ७.
 अक्षर-वैराज^१- -जे शाश्रौ १४,
 २५, ५; २६, ५; २८, १२; ३०, २.
 अक्षर-व्यक्त^०- -क्तम् शैशि
 २११.
 अक्षर-व्यक्ति- -क्तिः याशि २,
 ८३.
 अक्षर-व्यजन^३- -नानाम् तैप्रा
 २३, ७.
 अक्षर-शत- -तानि निसू ६, ८ :
 १७.
 अक्षर-शब्द- -ब्दात् निसू २,
 १० : १४.
 अक्षर-शस् (:) आश्रौ ७, १२,
 १२; वाधूश्रौ ४, १०५ : ४.
 अक्षर-संसङ्ग- -ङ्गः निसू ७, २ :
 १५; -ङ्गेन लाश्रौ ७, ९, ३; निसू
 ७, २ : १३.
 अक्षर-संहिता- -ता तैप्रा २४, २.
 अक्षर-संहिता(ता-आ)दि^०-
 -दीनाम् तैप्रा २४, ४.
 अक्षर-संख्या (ख्या-अ) वच्छे-
 दक^१- -कम् अअमू १.
 अक्षर-स-घातु^१- -तु लाश्रौ ७,
 ९, ८.
 अक्षर-सम- -मम् लुसू १, ७ :
 ३१.
 अक्षर-समास- -सः निसू ८, ६ :
 २४.

a) अक्षराधिकरणम् इति लासं. । b) सपा. तैप्रा १०, २६, १ मना २, ३४, अक्षरम् इति पाभे. । c) विप. ।
 बस. d) तस. । उप. स्वार्थे अण् प्र. । e) नाप. (छन्दो-विशेष-). बस. । f) तस. । g) दस. । h) विप. ।
 बस. । उप. वि-राज् + स्वार्थिकः अण् प्र. । i) तस. > तस. । j) विप. । तस. > बस. । स = समान- ।
 वैप-प्र-^३

अक्षर-समुदाय- -यः शुभा ८, ४६.

अक्षर-संमूह- -हे पावा ४, ४, १४०; ५, ४, ३०.

अक्षर-संपद- -पदा मैत्र ६; ऋप्रा १६, ६९.

अक्षर-सहस्र- -स्रम् निसू ६, ८; ८; -स्ताणि ऋअ ३, ४६.

अक्षर-स्थ- -स्थः निसू ३, ६; २४.

अक्षरा(र-अ)क्षर^१- -रम् निसू ८, ६; १०; १९; ४२; -रयोः निसू ३, ७; ११; -राणि निसू ८, ५; २६; २७; -रे निसू ३, ७; ९.

अक्षरा(र-अ)क्ष^२- -क्षम् ऋप्रा १, २२; ३२.

अक्षरा(र-अ)धिकार- -रः लाश्रौ ६, १०, २४.

अक्षरा(र-अ)न्त- -न्ते भाशि २५.

अक्षरा(र-अ)श्रय^३- -यम्^४ शैशि १६; ३३; ४९; -याः ऋप्रा ३, २.

अक्षरो(र-उ)पधि- -धिम लाश्रौ ७, ९, ८.

अक्षर्य^५- पा ५, १, २; -र्यौ बौश्रौ १६, ६; १८.

अक्षि, क्षी^६- पाउ ३, १५६; पाग ५, २, २४; -क्षि आपश्रौ १८, १४, ६; बौश्रौ ६, २; १६; माश्रौ २, १, १, ३८; वैश्रौ १२, ७; ८; हिश्रौ १३, ५, २३; निसू ३, १२; ३; आग १, १०, १६; मागृ १, ३, ४;

११, ८; हिग १, १७, २१; जैग १, १९; १७; कौसू ५८, १; २१; शुअ १, १; या १, ९, ४; -क्षिणि माश्रौ ६, १, ७, २६; ३०; लाश्रौ ३, ३, ६; -क्षिणी आश्रौ ५, १४, २४; १९, ६; वैश्रौ १३, १७; ५; द्राश्रौ ६, २, ११; लाश्रौ २, १०, ११; आग ४, ६, ११; पाग २, ६, २७; गोग १, २, ८; जैग १, ४; २६; अप ४, १, ८; ३५, १, १२; या १२, १४१; -क्षिभ्याम् आश्रौ ५, ६, ८; माग १, ९, २५१; वाग १२, २१; अप ३५, २, ३; -क्षीणि शाश्रौ ४, १६, ६; आपमं २, १४, २; कौग ५, ८, ५; आगिग २, १, ३; २६१; भाग १, २३; १९१; हिग २, ३, ७; ११; शुअ ४, १९८; -क्षीभ्याम् शाश्रौ १६, १३, ४; वैताश्रौ ३८, १; आपमं १, १७, १; आग ३, ६, ७; कौग १, १३, २; शाग १, २१, ३; पाग २, ६, १९; बौपि ३, ११, १; कौसू २७, २७; अप ३२, १, ९; ३३, ६, ४; ऋअ २, १०, १६३; वृदे ८, ६६; अअ २, ३३; २०, ९६; अपं २; २३; या ७, ३; -क्षयोः काश्रौ १७, ५, १०; आपश्रौ १५, १५, १; भाश्रौ ११, १५, ४; बौश्रौ ३, २५; ८१; वाश्रौ १, १, ५, १९१; ३, ६, १६१; जैश्रौ १२; ७; ११;

आगिग १, ५, ४; १६१; कौसू ११, १६; -क्ष्यौ काश्रौ ७, २, ३१; पाग २, ६, १२; कौसू २५, २४१; ७९, २१; ऋअ ४, ३; ७, ३६.

अक्षि-कट^७- -टम् बौश्रौ १८, ९; ३७; -टयोः आपश्रौ १६, २७, ७; हिश्रौ ११, ७, ५६; -टे आपश्रौ १६, २७, २; हिश्रौ ११, ७, ५४.

अक्षिकट-क- -कयोः बौपि ३, ३, १०.

अक्षि-कृट^८- -टे विध ९६, ९२.

अक्षि-च्छिद्र- -द्रयोः वाश्रौ २, १, ७, ७; -द्रे वाश्रौ २, १, ७, ५.

अक्षि-जाह^९- पा ५, २, २४.

अक्षि-दुःखो(ख-उ)स्थित- -तस्य बौश्रौ १२, १०; १२.

अक्षि-देवता^{१०}- > अक्षिदेवत्य- -त्यम् अअ ७, ३६.

अक्षि-भू^{११}- -भुवः शाश्रौ १२, २४, २; लाश्रौ ९, १०, ६; शुप्रा २, ९.

अक्षि-भ्रुव^{१२}- पा ५, ४, ७७; पाग २, २, ३१.

अक्षि-मत्- -मन्तः या १, ९.

अक्षि-रोग- -गाः अप ५७, १, ६.

अक्षि-वाल-खुर^{१३}- -रम् हिपि ४; ५.

अक्षि-वेदना- -ना अप ५५, ४, २.

अक्षि-वेप^{१४}- -पम् कौसू ५८, १.

अक्षि-स्पन्द^{१५}- -न्दः भागृ २, ३, १:

a) वीप्सायां द्वित्वं कर्मधारयवत्त्वं च (पा ८, १, ११) । b) = व्यजन- । तसः । c) विपः । बसः ।

d) पाठः? अक्षरमाश्रयः इति संस्कर्तुः टि. शोधः त्रिमृशयः । e) वैप १, परि. च द्र. । f) अक्षी^{१६} इति आनः पाभे. । g) सपा. अक्षि^{१७} <> अक्षी^{१८} इति पाभे. । h) यक्षी^{१९} इति पाठः? यनि. शोधः (तु. आपमं २, १४, २) ।

i) = अक्षि-गोत्रक- । उप. व्यु? । j) अक्षिकटयोः इति R. पाभे. । k) = नेत्र-पक्ष्मन्- । तसः । नेत्र-नासा-

सन्धि- इत्यापि केचिदिति भाष्यकृतः । l) = अक्षि-मूल- । जाहृ प्र. । m) कसः । n) वैप १ द्र. । o) द्रसः

समासान्तः अक्ष प्र. । p) समाहारे द्रसः । q) तसः । उप. भापः ।

१४^a; -न्दे बौगृ ३, ५, १३[†].
अक्षि-स्पन्दन-ने आगृ ३, ६, ७.
अक्ष्या(क्षि-आ)मय- -यम् गोगृ
४, ७, २१; -ये काश्रौ २०, ३,
१४.
अक्ष्यु(क्षि-उ)न्मेपण- -णम् वैगृ
४, १०: ११.

अक्षु^b- पाउना ३, १५७.

अक्षण^b- पाउ ३, १७.

अक्षण्या^b काश्रौ ५, ४, १२; ८,
५, २; ११; १७, २, १५; १७;
आपश्रौ २, ९, १; ७, ५, ४; १३,
८; १०, ७, ९; ११, ९, ६; १६,
३२, १; १७, २, ६; ३, ४; काठश्रौ
७०; बौश्रौ ४, ३, ६; ५: १६; ६,
२२: १२; १८; १०, ३०: ४; ३५:
१२; ४५: ६; ५०: १३; १५, ७:
३; १७, ४१: ११; १९, १: ५; ७;
२०, १४: ८; २६: २२; भाश्रौ १२,
४, १८; माश्रौ १, ३, ४, २६; ८, ३,
५; २, १, १, ४३: ६, २, १, २३;
वाश्रौ १, ६, १, ३२; ४, १४; २,
१, ६, १३; २, १, १४; ३, २१;
वैश्रौ ५, ६: १; १४, ७: ३; १८,
२: ६२; १९, ४: १२; हिश्रौ १, ८,
२; ४, २, ६; ७, ४, ४१; ११, ७,
२३; ८, ५; १२, १, ३१; ४, ७;
आपमं १, १३, ६; आग्निगृ १, ३,
४: ५; ५: ३; बौगृ १, ३, २७;
२८; ४, २, ११[†]; भागृ २, २१:
४; ३१: १३[†]; हिगृ १, १६,
१७[†]; जैगृ १, ३: १३; कौसू
४७, २७; ८५, १८; आपश्रु २,

९; ९, ६; १५, १२; १६, ६; ८;
९; १८, ७; काशु १, १३; १५; २,
७; ३, १०; ४; ७, १७[†]; बौशु २:
४; ६; १२; २०; १०: २; १६;
१९: १२; २०: ७; १०; ११;
हिशु १, ३०; ३, २५; ५, २७;
२९; ३०; ६, ११.

अक्षण्या-मान- -नम् बौश्रौ
२६, १०: ३; वैश्रौ १४, ४: ४;
-नेन बौश्रौ १०, १९: ५; १०.

अक्षण्या-रज्जु- -ज्जु: काश्रौसं
२५: २^{१०}; आपशु १, ७; ८;
१०; २, ३; ७; १२; ५, २; ४-६;
काशु २, ८; ९; ११; १२; १४;
२२; बौशु १: ३१; ३३; ३४; २:
२; हिशु १, ११; १३; १५; २४;
२९; ३२; २, ९; १२; १४; १५;
-ज्जवा आपशु १९, ९; हिशु ६,
२९.

अक्षण्या-स्तोम- > अक्षण्या-
स्तोमी(य>)या^०- -या: बौश्रौ
१०, ४२: १; वैश्रौ १९, ४: ३;
-याभि: माश्रौ ६, २, १, २३.

१-रेअक्ष- १अक्षणवत्- ✓अक्ष द्र.

२अक्षणवत्^f- -णवन् आगृ १, १७,
१७; पागृ २, १, २०^{१४}.

१अक्षत, ता^h- -त: अप १, ४८, १;
४; ६८, २, ४३; -तम् कौगृ
३, ५, ९[†]; शांगृ ३, १०, २[†];
आग्निगृ २, ३, ३: २१; २२; जैगृ
१, १२: १३; कप्र १, ४, ६; विध
५, ८; -ता विध १५, ८; -ताभि:
शंघ ६१^१; -तै: अप १, ४८, १.

अक्षत(ता)-क(र्ण>)र्णीⁱ- -र्णी ऋत
५, १, ३.

अक्षत-योनिⁱ- -नि: वाध १७, ७४;
बौध ४, १, १८; सुधप ८८: ६.

२अक्षत^k- -तम् आमिगृ २, ३, ३:
१८; २१; वैगृ १, २०: ९; ३, १४:
१४; १९: ३; -ता: कप्र ३, ९, १;
अप १, ३१, ४; ४३, १०; अशां
१२, २; -तान् आगृ ४, ४, १३;
कौगृ १, १४, १०; शांगृ १, २२,
१३; पागृ ३, ५, २; मागृ २, १,
५; गोगृ ४, ८, १; गौपि २, ५, १;
द्रागृ ३, २, ८; १२; कप्र १, ४, ६;
अप १, ४३, २; ७०^३, ४: ३;
विध १९, ९; -तानाम् कागृ
५५, २; -तेन वैगृ ५, २: १२;
कौसू ३१, २०; -तै: पागृ १,
९, २; २, १३, २; आमिगृ २, ३,
३: ९; ४, ६: ५; वैगृ ५, १०: ५;
अप ७, १, ५; ३६, १५, १; अशां
१३, १; विध ९०, १७.

अक्षत-गन्ध-पुष्प-धूप-दीपⁱ- -पै:
आग्निगृ ३, ११, ४: १०.

अक्षतगन्धपुष्पधूपदीपा(प-आ)-
द्यⁱ- -द्यै: आमिगृ २, ४, ६: १०.

अक्षत-तण्डुल^m- -लान् गोगृ ४, ५,
२६; २९; द्रागृ ४, १, १२; १४.

अक्षत-धानाⁿ- -ना: आगृ २, १, ३;
कौगृ २, ६, २; शांगृ २, ८, १;
पागृ २, १०, ११; १५; १४, ३;
भागृ २, १: २; ११; हिगृ २, १६,
३; गोगृ ३, ३, ६; वाध १३, २;
-नानाम् भागृ २, १: ४; जैगृ

a) अक्षिसंस्पशौ इति संस्कृते: टि. पाठ: । b) वैप १ द्र. । c) °क्षण्याम् इति पाठ: ? यनि. शोध: ।

d) सकृत् अक्षू या रज्जु: इति पाठ: ? यनि. शोध: । e) नापं. (इष्टका-विशेष-). वैप १, परि. च द्र. । f) तस. ।

उप. < ✓क्षण् [हिंसायाम्] । g) अक्षु° इति पाठ: ? यनि. शोध: (तु. आगृ.) । h) विप., भाप. । तस. उप.

शेषं f टि. द्र. । i) पाठ: ? अक्षाराभि: इति शोध: (तु. विध ६२, ५ इत्यत्र संस्कृते: टि.) । j) विप. । बस. ।

k) नाप. (तण्डुल-, यव-) । शेषं f टि. द्र. । l) द्रस. । m) मलो. कस. । n) मलो. कस. वा द्रस. वा ।

१, १४ : ५; -नाभ्याम् वैगृ २,
१२ : ६.

अक्षत-धूम^०-मम् कागृ ४५, १५.

अक्षत-पुञ्ज- -ओषु कप्र १, १, १४.

अक्षत-माष^०- -वैः अप १, ३०, २.

अक्षत-लाज^०- -जान् हिगृ २, १६, ३.

अक्षत-सकु- -कून् कौगृ ४, २, २;

शांगृ ४, १५, ३; भागृ २, १ : २;

११; भागृ २, १६, १; गोगृ ३, ७,

२२; द्रागृ ३, २, १३; कौसू ४७,

३३; -कूनाम् आगृ २, १, २;

कौगृ ३, ७, ५^०; ४, २, १; शांगृ

४, ५, ३; १५, १; १९; कागृ

२२, २; भागृ २, १ : ४; भागृ

१, ११, २३; २, १६, ३; गोगृ

३, ९, ४.

अक्षतसक्त्वा (कु-आ)हुति-सह-

स^०- -सम् गोगृ ४, ९, ११.

अक्षता(त-आ)ज्य-चरु^०- -रुभिः वगृ

१, १४ : ३.

अक्षता(त-आ)दि^०- -दिना वैगृ ५,

१४ : ९.

अक्षता(त-अ)र्ध- -वेण अप ५, ४, १.

३अक्षत^०- -तम् कौसू ३१, ११.

अक्षन्- ✓अच् द्र.

१अक्षय^०- -यम् अप ७०, ७, १.

२अक्षय, या^०- -यम् गौपि २, ४,

१४; ५, २; वाध ११, ३६; शंघ

११५; विध ४९, १०; ७४, ८^०;

८५, १; वृदे ४, ७१; ७, ६०;

चव्यू ४ : ३२; या २, १०; १३,

१२; -या विध ६, १६; -यान्
अप १८^०, १, १२; -याम् वृदे ६,
५५.

अक्षय-स्थान^०- -ने गौपि २, ६,
१३^०.

अक्षयण- -णात् निसू ५, १० : १६.

अक्षय्य^०- -य्यम् आपश्री ८, १, १;

२२, ८, १; वैश्रौ ८, ३ : १; हिश्रौ

५, १, १; १७, ३, २५; आपमं २,

२०, ३३^०; वैगृ ६६ : ११;

आग्निगृ ३, २, ६ : २^०; बौगृ

२, ११, ४४; ५३; बौपि २, ९,

२१; ११, ८^०; भागृ २, १० : ३^०;

वैगृ १, २० : ७^०; कौसू ८८,

१३^०; अप ३९, १, १२^०;

४४, ४, ९^०; बौध २, ६, ८^०;

विध ७१, ९१; ९०, १२; १८;

९२, ३२; अत्र ८, १; -य्याः

वाध ११, २२.

अक्षय्य-ता- -ताम् शंघ ११६ :

८१; ८३; १९४; विध ७९, २४.

अक्षय्य-नवमी^०- -न्याम् अप १८^०,

७, १.

अक्षय्य-फल-द^०- -दम् अप ११,

२, ३.

अक्षय्य-फल-वाचक^०- -कः जैश्रीका

१७१.

अक्षय्य-वृत्ति^०- -त्तयः कौगृ ३, १२,

३०.

अक्षय्य-स्थान^०- -ने शांगृ ४, २, ५^०;

४, १२.

अक्षय्यो (य्य-उ) दक^०- -कम् विध
७३, २७; -के कप्र १, ४, ८;
३, ५, १५.

अक्षय्योदक-दान^०- -नम् कप्र
१, ४, ९.

अक्षर- प्रभृ. ✓अच् द्र.

?अक्षा^०- -क्षा शांश्री १८, ४, १; ५, १.

अक्षाम^०- -मः अप्राय ४, १.

अक्षार, रा^०- -रम् वागृ ५, ४१; हिगृ

१, ८, २; -रा अप ३०, १, ३;

-राभिः शंघ ५६; ४५९; विध

६२, ५.

अक्षारा(र-अ)लवणा(ए-आ)-

शिन्^०- -शिनः आगृ ४, ४,

१६^०; -शिनौ भागृ १, ८, १०;

पागृ १, ८, २१; जैगृ १, २२ :

११; हिगृ १, २३, १०; -शी

आगृ १, २२, १९^०; पागृ २, ५,

१०; जैगृ १, १२ : ७०.

अक्षार-लवणा, णा^०- -णम् बौश्री

२४, २१ : ८; आग्निगृ १, १,

४ : २९; ४५; ४६; २, १ : २०;

६, ३ : ४३; बौगृ ३, १, २६;

वागृ ५, ४०; वाध १७, ५५;

बौध ३, १, १९; -णाम् वाध

२७, ११.

अक्षारलवण-भोजन^०- -नम् आग्निगृ

२, ६, ५ : २६; बौगृ २, ९, २४;

बौपि १, ९ : १४; ३, ४, २२.

अक्षारलवणा(ए-आ)शिन्- -शिनः

आग्निगृ ३, ९, १ : १७; बौध १,

a) मलो. कस.। b) 'सूक्ता' इति पाठः ? यनि. शोषः (तु. शांगृ ४, ५, ३)। c) षस. > षस.।

d) द्वस.। e) विप.। वस.। f) नाप. (अरुस्- [तु. माश १३, ३, ८, ३])। बस.। उप. भाप.। g) तस.।

उप. भाप. < ✓क्षि [क्षये]। h) कस.। i) सप्र. अक्षय^० < > अक्षय्य^० इति पाभे.। j) वैप १ द्र.।

k) सपा. अक्षय्यम् < > अक्षितम् इति पाभे.। l) नाप.। कस.। m) कस. > उस.। n) कस. > तस.।

o) तस.। p) पाठः ? (✓*अर्धे [स्तुतौ] > *अर्व्या- > र्व्या [विप. ([पठनीया-] ऋच्-)] इति शोषः (वैतु.

आनर्तायः यनि. प्राति. बाहु-पर्याय इति ?; BC. ध्यप. [तदाख्य-ऋग्-विशेष-] इति)। q) तस. उप. < ✓क्षै।

r) विप.। द्वस. > उस.। s) 'रुल' इति आन. जीसं. प्रभृ.। t) विप. (प्रतोपायनीय-] भोजन- प्रभृ.)। बस. > द्वस.।

५,११०; बौपि २,६,६; -शिनौ
कौगृ १, १०, १५; बौगृ १, ७,
९; भागृ १,१९: १०; गोगृ २,
३, १५; -शी वैश्रौ १,१६: २;
भागृ १, १०: ३; वैगृ २, ८:
१२; गोगृ २, १०, ४३; वैध १,
३,२;६.

अक्षि-प्रत्य. ✓अञ् द्र.

?अक्षिका-कायाम्^१ काश्रौ २५, ८,
५१.

अ-क्षित, ता^१- -तः माश्रौ १, ४,
२, १२^०; वाश्रौ १, १, ३, १६^{२०};
द्राश्रौ १२, ३, २३^०; लाश्रौ ४,
११, २१^०; वैताश्रौ ३, २०^०;
आपमं २, ११, १७^०; १८^०; १९,
१४^२-१६^२; आग्निगृ ३, १, ३:
२४^२; २७; २८; ३१; ३२; २, ३:
१४^२; ४: ३^२; ७^२; बौगृ ४, १,
७^०; ४, ५^०; भागृ २, १२: १०;
११; १५; १६; १३: ३; ४;
हिगृ २, १३, १^१; -तम् आपश्रौ
६, १४, ५; बौश्रौ ३, २०: १२^०;
१४, ५: ५०; वाश्रौ २, १, ५, १^२;
वैश्रौ २, ६: २; १८, १५: १०;
हिश्रौ ११, ६, २४; लुसू \$२,
९: २०; २१; आपमं २, २०,
१^०; आगृ २, १०, ६; आग्निगृ
३, १, २: १३^०; १६^०; १९^०;
३: २५; २९; ३३; २, ३: २^०;
५^०; ८^०; १५; ४: ४; ८; बौगृ
२, ११, ३६^०; बौपि २, ९, १८^०;
११, ७^०; भागृ २, १२: १२;

१७; १३: ५; १४: ३^०; ६^०;
९^०; वैगृ १, २०: १०; हिगृ २,
११, ४^{२०}; १३, १^{२०}; १५, ९^०;
गौपि २, ४, १; जैगृ १, ४: १८;
कौसू ६८, १, २; अप ४८,
७५; बौध २, ८, १२^{२०}; निघ
१, १२; या १४, ११; -ता कौसू
८८, ८^२; ९^२; १०^२; अप ४४,
४, ४; विध ७३, १७-१९; -ता:
बौश्रौ ३, २०: १७; हिश्रौ ६,
४, १४; जैश्रौ ११: २१; बौगृ
१, २, २९; हिगृ १, १३, ४;
जैगृ १, ४: २४; कौसू १९,
२७; अप ४६, ४, १; ६, २; अशा
१९, ३; -ताम् आश्रौ ६, १४,
१६^२; हिश्रौ ३, ७, ६१^२; आपमं
२, ११, ३; या ११, ११; -ताय
कौसू १२२, २.

अक्षिता(त-आ)हुति^१- -तिम्
बौश्रौ ३, ७: ९; २०, २०: २४.

अक्षितो(त-ऊ)ति^१- -तयः आपश्रौ
१३, २१, ३; हिश्रौ ९, ५, ४३.

अक्षितो(त-उ)द(क>)का^१- का:
हिश्रौ २, ७, ३७; ४९; आग्निगृ
३, ११, २: १२.

अ-क्षिति^१- -तयः शाश्रौ ५, ८, ४;
या ५, ११; -तिः आश्रौ १, ११,
६^०; १३, ४^०; शाश्रौ ४, ९, ४^०; ११,
३^०; काश्रौ ३, ४, २७^०; आपश्रौ
१०, ३, ८; बौश्रौ २, १०: १९;
२३; २७; वाधुश्रौ \$३, २९: ६; ९;
आग्निगृ ३, ८, २: ४१; बौपि

१, १५: ४८; -तिम् शाश्रौ ५,
८, ४^१; ९, २८, ३^१; आपश्रौ ६,
९, ४^२; बौश्रौ ३, ६: २; ७;
माश्रौ २, ३, ६, १५; वाधुश्रौ \$४,
२९: ९; ३७: १५; शांगृ १,
२२, ७^१; या ५, ११^१.

अ-क्षिति^१- -तिः वाधुश्रौ ४, ३७:
२४; -तिम् शाश्रौ १४, ८१,
२; वाधुश्रौ ४, ३७: २; ४;
१२; २४; शांगृ ६, ६, १६^१;
अअ १८, ४^१; अप ३: २२^१;
-तय्याम् बौश्रौ ३, ७: ९; २०,
२०: २४; -त्यै आपश्रौ ६, १४,
५; १०; बौश्रौ ७, ३: १७; माश्रौ
१, ४, २, १२; २, ३, २, १८; वाश्रौ
१, १, ३, १६; वैश्रौ १५, ६: ६;
हिश्रौ ३, ७, ६१^२; ८, १, ६८;
द्राश्रौ १२, ३, २३; लाश्रौ ४, ११,
२१; वैताश्रौ ३, २०; आग्निगृ ३,
६, ३: २९; बौगृ ४, १, ७; ४, ५;
बौपि १, १२: ४; हिपि १०: ३.

अक्षिति-काम-माः शाश्रौ १४,
८१, २.

?अक्षिपन्ति^१ निसू ५, १०: १५.

अक्षि(क्षीवैध.)ल^१->आक्षि(क्षी)-
ल- -ल हिश्रौ २१, ३, १०^२;
१२; वैध ४, १, ९.

अक्षि(क्षी)ल-वत् हिश्रौ २१, ३,
१०^२; वैध ४, १, ९.

अक्षी- ✓अक्ष् द्र.

अ-क्षी(ण>)णा-णाः लाश्रौ १०,
७, ७.

a) पाठः? अक्षितायाम् इति शोधः द्र. (तु. BC.) । b) वैप १, परि. च द्र. । c) पाभे. वैप १ परि.
अक्षितः तै १, ६, ३, ३ टि. द्र. । d) सपा. ऋ ५, ७८, ९ अक्षतः इति पाभे. । e) पाभे. पृ २० k टि. द्र. ।
f) पाभे. वैप १ परि. *ताम् तै ३, ३, ११, ३ टि. द्र. । g) *तम् इति आन. पाठः? । h) कस. । i) पाभे. वैप १
परि. *तम् तै २, ४, १४, १ टि. द्र. । j) पाठः? (अ-अय->) *अक्षय-वत्- (विप. [क्षय-रहित-] अहन-)> -वन्ति
इति शोधः । प्रकृते क्षय- इति नाशनिवासयोः कतरस्य पर्याय इत्यत्र मूलेऽप्यनभ्यवसाय एव । k) व्यप. (गोत्रप्रवर्तक-
ऋषि-विशेष-). व्यु. ? । आपश्रौ २४, ७, ४; ५; ९, ११ अक्कील- इति ।

†अ-क्षीयमाण, णा- -णः आपश्चौ
 ४, ११, ३^३; भाश्चौ ४, १६, ३^३;
 वाश्चौ १, १; ३, १६^३; हिश्चौ ६,
 ३, ६^३; कौश्च ५, ७, २; आग्निश्च
 ३, ११, २: ८; -णम् आग्निश्च
 २, १, ५: ९; ३, ३, १: २४;
 बौपि २, ११, २; जैश्च २, १: ६;
 २१; २: २४; कौसू ६८, १: २;
 -णस्य आपश्चौ २, ६, १; बौश्चौ
 १, १०: २; भाश्चौ २, ६, १;
 माश्चौ १, २, ३, २५; वाश्चौ १, ३,
 १, २४; -णाः गौपि १, ३, ४-६;
 -णाणि काश्चौसं ४: १६; -णाम्
 बौपि २, ९, ५.

अ-क्षीर-लवण^b- -णम् हिध १, ७,
 १४^०.

अ-क्षीरा(र-अ-)क्षार-भोजन^d-
 -णम् अप ४६, १, ९.

अ-क्षीरा(र-अ-)क्षार-लवण^e-
 -णम् आपध १, २८, ११; हिध
 १, ७, ४७.

अक्षीराक्षारलवण-भोजन- -णम्
 आपध १, २६, ३^०.

अ-क्षीरिन्^f- -रिणः द्राघ ४, २, ८.

अक्षीरिणी- -ण्यः गोग ४, ७, ४.

अ-क्षीव^g- -वेण अप १, ३०, ४.

अक्षु- √अक्ष् द्र.

अ-क्षुण्ण-वेद-यज्ञ^h- -णस्य शंघ
 २८४.

†अ-क्षुध्य- -ष्याः काट २७, ३.

अ-क्षेत्रⁱ- -त्रम् हिपि १: ५.

अ-क्षेत्र-ज्ञ- पाग ५, १, १२४.

अक्षेत्रज्ञ-य, आक्षेत्रज्ञ- पा ५, १,
 १२४; ७, ३, ३०.

अ-क्षेम^j- -णम् अप ५७, २, ३; -माय
 अप ५८, १, ५; -मे द्राघ ४, १,
 २१; ३, १४.

अ-क्षैप्र-युक्त^k- -क्तम् ऋप्रा १५, ९.

अ-क्षोधुक्^l- -कः गोग १, ६, ३;
 द्राघ २, १, ५; -काः भाशि
 ४८(२).

अक्षोधुक-भावुक^m- -कम् वाधुश्चौ
 ३, ९: १६; ४, ६०: १२.

अ-क्षोभ्य- -भ्यम् विध १, ४२.

अक्षोहिणी-, अक्षण-, अक्षण्या
 √अक्ष् द्र.

अ-खञ्ज- -ञः हिश्चौ ४, ३, १.

१अ-खण्डⁿ- -ण्डः हिश्चौ ४, ३, १;
 -ण्डम् बौश्चौ २, ३: ८ⁿ.

२अ-खण्ड, ण्डा^o- -ण्डम् वैश्चौ ८, ६:
 ९; -ण्डाः वैश्चौ १८, ११: २४.

अ-खर्व^p- -र्वेण बौश्चौ १, ७, ३६^१;
 वैश्चौ ३, ९: २; वाध ५, ७.

१अ-खल^q- -ले बौश्चौ ३, ४, २; २२;
 ३०.

अ-खा(त>)ता^r- -ता वाश्चौ १, ७,
 ४, २; हिश्चौ ५, ४, २५; -तायाम्
 भाश्चौ २, ३, २.

अ-खात्वा वाश्चौ १, ३, १, ३३.

अ-खादत्- -दति काश्चौ २०, ५, १९;
 -दन्तः पाट २, १०, १५.

अ-खाद्या(य-अ-)पेया(य-अ-)नाद्य^s-
 -द्यम् आपध १, १७, १७; हिध
 १, ५, ४९.

अ-खि(द>)द्रा^t- -द्राः बौश्चौ ७, ४:
 २०[†].

अ-खिल^u- -लम् बुदे २, २३; ७९;
 ६, ८६; १२४; -लाः वाध ६, ४.
 अखिल-राग-युत^v- -तः अप २४,
 ५, ४.

अ-खो(ड>)डा^w- -डा काशु ७, १४.

१अखल-ल^x-, अखली √कृ(करणे)
 >†अखली-कृत्य ऋप्रा ७,
 ३३.

√अग् भ्वा. पर. कुटिलायां गतौ.

अ-ग^y- पा ६, ३, ७७.

अ-गच्छत्- -च्छन् नाशि २, ८, १६.

अ-गण्य- -ण्याः ऋप्रा १५, २७; १८,
 ५८.

अ-गत-श्री^z- -श्रियः वाश्चौ १, ५, २,
 ६; ४, ४२; -श्रीः आपश्चौ १,
 १४, ९; बौश्चौ १७, ४९: १;
 २३, १७: ८.

अ-गति- -तेः पा. पावा ८, १, ५७;
 -तौ पा ७, ३, ४२.

अगति-स्व- -त्वात् पावा ८, १, ७०.
 अ-गत्वा आश्चौ १२, ४, २२.

a) पाभे. वैप १ परि. अक्षित-> -तम् शौ १८, ४, ३६ टि. द्र. । b) बस. >द्वस. । अक्षार^० इति पाठ इति महादेवः पक्षान्तरे । c) सपा. अक्षीरलवणं भोजनम् < > अक्षीराक्षार-लवणभोजनम् इति पाभे. । d) बस.>द्वस.>कस. । e) विप. । बस.>कस. । उप. बस. >द्वस. । f) नाप. । तस. । g) ष- इति वा (तु. PW. प्रभृ.) । h) तस.>बस. । उप. द्वस. । i) तस. । j) विप. । तस. >तृस. । k) वैप १, परि. च द्र. । l) विप. । उस. उप. खुक् प्र. उसं. (पा ३, २, ५७) । m) विप. । तस. । उप. अर्थः? = भग्नदन्त- इति भाष्यकृतं । n) षण्डम् इति मूको. । o) विप. । बस. । p) *कम्याखले इति पाठः? *कम्य, खिले इति शोधः (तु. सप्र. आपश्चौ १५, २०, २ बौश्चौ ९, १९: ३) । q) द्वस. । r) अ-खि^० इति पाठः? यनि. शोधः (तु. सपा. तै ३, ५, ८, १; संस्कृतः टि. च) । s) कस. >तृस. । t) =अ-खण्डा- । व्यु. ? । u) तस. । =जग- । उप. √गम् + डः प्र. ।

अ-गद्, वा^ab- -०द् काश्रौ १२, २, २२^c; -दः शाश्रौ १५, २२, १; बौश्रौ १४, २२ : २४; २७ : ५; वाधुश्रौ ४, ७५ : १४^d; आगृ ४, १, ४; आमिगृ २, ५, ३ : ४५; ४६; ३, ५, १ : ४; ७, ३ : ७; आपगृ ७, १८, २; ४; बौगृ ३, ७, २७; २८; बौपि १, १ : ३; २, १, ३०; भागृ १२, ७ : २७; २८; हिपि १ : १०; अप्राय २, ९^e; -१द्म आश्रौ ३, १०, ३१^d; आपश्रौ ९, ४, १^d; भाश्रौ ९, ५, २२^d; वैश्रौ २०, ९ : ४^d; हिश्रौ १५, १, ७५^d; आगृ ४, १, ३६; -दाम् काश्रौ २५, ९, १५; आपश्रौ ९, १८, १२; माश्रौ ३, ५, १४; हिश्रौ १५, ८, १२; -दे आश्रौ ६, ९, ७.

अगद्-कार- पा ६, ३, ७०.

✓अगद्य पा ३, १, २७.

अ-गदिन्- -दी बौध २, १, २७.

अ-गन्तु- -न्ता आपध १, ३, १२; हिध १, १, ८५.

अ-गन्ध, न्धा^b- -न्धम् या १४, ३; -न्धाम् गोगृ ३, ५, १५; द्रागृ ३, १, ४०.

अ-गन्ध-सेविन्^c- -वी आपध १, २, २५; हिध १, १, ५८.

अ-गन्धि^d- -न्धि विध ६६, ६; -न्धीनि शंघ १९७; विध ७९, ५.

अ-गमनी(य>)या- -याम् आगृ ३, ६, ८१.

अ-गम्य, म्या- -म्यम् विध ९७, १७; -म्या-बौध ४, ६, ६; -म्याः बौध २, २, ६४; -म्यानाम् बौध २, २, ६५.

अगम्या-गमन- -नम् अप ६८, २, १५; बौध २, १, ४४; सुधप ८७ : ६; -ने विध ५३, १; सुध ४६.

अगम्यागमन-स्त्रीवध-चाण्डाल-संपर्क^e- -केशु सुधप ८० : १२.

अगम्या-गमिन्^f- -मी काध २७८ : ७.

अ-गर्भ, र्मा^b- -र्भस्य काश्रौ ४, ७, २१; -र्भा बौश्रौ १२, १९ : ७; -र्भाभिः बौश्रौ १२, २ : १६.

अ-गर्भ-कारम्^g आश्रौ ९, ११, १०.

अ-गर्हित, ता- -तम् आमिगृ ३, १२, १ : १; -ताम् आमिगृ १, ६, १ : ३.

अ-गवा(गो-आ)दि^h- -दिषु पावा ६, ३, ८३.

अ-गव्यूतिⁱ- -ति ऋञ्च २, ६, ४७; वृदे ५, १११.

अगस्-

अगस्-वल^k- -लम् कौस् ४६, ५५^l; अप १, ३६, ७.

अगस्ति^m- पा २, ४, ७०; पाउवृ ४, १८०; पाग ४, १, १०५; २, ८०; -स्तयःⁿ बौश्रौ ४९ : १; ४; -स्तित्ना अप ३९, १, ३; -स्तीन्^o बौश्रौ ४९ : १; -स्तीनाम्^p आश्रौ १२, १५, ३; आपश्रौ २४, १०, ९; हिश्रौ २१, ३, १५.

अगस्त्व- पा ४, १, १०५; २, ८०^q; -०स्त्व आश्रौ १२, १५, ३^r; आपश्रौ २४, १०, ९; १०; बौश्रौ ४९ : ५; ५० : १; ५१ : १; हिश्रौ २१, ३, १५^r.

अगस्ति-वत् आपश्रौ २४, १०, ९; १०; बौश्रौ ४९ : ६; ५० : २, ५१ : २; हिश्रौ २१, ३, १५^r.

अगस्त्व^m- पाउभो २, ३, ४; पाग ४, १, १०५; २, १११; -स्त्वः अप ५२, १०, १; वाध १४, १५; ऋञ्च २, १, १६६; १९१; वृदे २, १५६; ३, ५५; ४, ४७; ५१; ५३; ५८; ६१; ६४; ५, १५०; १५२^r; शुञ्च १, २, १४; ३, ५६; ३, १८८; १९५; २४०; ४, २; ३, १७६; साञ्च १, ६, १२; २, ७८२; अञ्च ६, १३३; या १, ५; -स्त्वम् शंघ ११६ : ४३; -स्त्वस्य बौश्रौ १४, ४ : ३२; १७, ४० : ४^q; १८, ५२ : ११; हिश्रौ १५, ५, २१; जैश्रौ २५ : २; कौगृ १, २१, ८^q; शौगृ १, २८, १^q; आमिगृ १, ३, २ : १२^q; मागृ १, १, २४; वागृ ४, २०^q; वैध ४, १ : २; ऋञ्च २, १, १६५; १७९; १०, ६०; वृदे २, ८२; ७, ९७^q; चाञ्च २ : ८; १८ : २; ४० : १३; ४१ : ७; ४२ : २; -स्त्वानाम्ⁿ वैध ४, ८, १; -स्त्वय आमिगृ १, २, २ : १७; बौगृ ३, ९, ४; भागृ ३, १० : २; हिगृ २, १९, ५; -स्त्व्ये वृदे

a) वैप १, परि. च द्र.। b) विप.। बस.। c) आगतः इति पाठः? यनि. शोघः (तु. B.)।

d) सपा. अगदम् <> अगदाम् इति पाठे.। e) विप.। तस. > उस.। f) विप.। बस.। समाप्तान्तः इत् प्र. उस्. (पा ५, ४, १३६)। g) द्वस.। h) विप.। तस.। i) उप. णमुलन्तम्। j) तस. > बस.। k) विप.। मतुबर्थायः चलच् प्र. (पावा ५, २, ११२)। l) अगस्त्वल् इति पाठः? यनि. शोघः (तु. अप., संस्कृतः टि. च)। m) व्यप. (गोट्रप्रवर्तक-श्रुषिविशेष-)। वैप १ द्र.। n) बहु. < आगस्त्व- (पा २, ४, ७०)। o) सपा. अगस्तीनाम् <> अगस्त्वानाम् इति पाठे.। p) देश-विशेष-। तेन निवृत्तमित्यर्थे संकाशादित्वात् ष्यः प्र.।

२, १३१; ३, १२८; ऋष्या ४, ९४;
१६, ३६; ५०; -स्त्येन ऋष्य
२, १, १७६.

अगस्ती^१- पावा ६, ४,
१४९.

२आगस्त्य^२- पा ४, १, १०५;
-०स्त्य वैध ४, ८, १-४; -स्त्यः
ऋष्य २, ९, २५; साञ्च १,
४७४; -स्त्यानि शांश्रौ ९, १२०,
११; -स्त्येभ्यः शांश्रौ ९, २०, १३
आगस्ती^३- स्त्वौ अप १,
३, १.

आगस्त- पा ४, २, १११.

आगस्त्य-कौण्डिन्य-

-न्ययोः पा २, ४, ७०.

अगस्तीय^४- पावा ६, ४, १४९.

अगस्त्य-गृहपतिक^५- -कम्
आपश्रौ २३, ११, ११; हिश्रौ
१८, ४, १४.

१अगस्त्य-भागिणीय^६- -याणाम्
चाञ्च ३० : २०.

अगस्त्य-वत् वैध ४, ८, १-४.

अगस्त्य-वसिष्ठ^७- -श्रौ ऋष्य २,
१, १६६.

४अगस्त्यस्य-निष्केवल्य^८- -ल्यम्
आपश्रौ १४, १९, १०; ११.

अगस्त्या(स्त्य-आ)श्रम- -मे विध
८५, २९.

अगस्त्या(स्त्य-आ)ष्टम^९- -मानाम्
बौश्रौ प्र १ : १; ५४ : १४.

अगस्त्ये(स्त्य-इ)न्द्र-मरुत्^{१०}-

-स्ताम् ऋष्य २, १, १६५.

अ-गाथ^१- -थः अत्राय ३, ८.

अ-गाथ- -धे कौट १, ९, १६; शांश्रु १,
१५, २०.

अ-गायत्- -यन् लाश्रौ १०, १९, १०.

अगार^१- पाउभो २, ३, ४०; -रम्
बौश्रौ २, १२ : २१; १३ : १६;
२९, ६ : १५; वैश्रौ २१, १७ :
८; हिश्रौ १६, ३, २; आगृ ३,
७, ७; ४, ४, १३; कौट, शांश्रु
३, २, १; आमिगृ १, ६, ३ :
४१; ३, ८, १ : १३; आपगृ १७,
७; १३; १८, १२; बौगृ १, ६,
२२; ३, ३, १६; ५, ५; ९; १९;
बौपि १, १४ : १२; ३, ४, २१;
भाग १, २६ : ३; २, ५ : ३;
वैगृ ३, १८ : ३; हिगृ १, २२, ६;
२३, २; २, ४, ७; हिपि १४ : २;
जैगृ २, ७ : २; आपध १, २८,
११; हिध १, ७, ४७; -रस्य
आगृ २, ९, ९; आपगृ ६, ८; १०;
१७, ७; बौगृ १, २, २; ४; २, ८,
१७; २५; ३, ५, ९; भाग १, २३ :
१; हिपि १२ : २; जैगृ १, २३ :
११; आपध २, ३, २२; २३;
हिध २, १, ५२; ५३; -राणि
आमिगृ १, ६, १ : ७; आपध १,
२८, १८; बौध २, १, ३; वाध
१०, ७; हिध १, ६, ६४; ७, ५४;
-रात् गोश्रु १, १, १६; द्रागृ १,
५, ५; -रे बौश्रौ २४, ३२ : ८;

२४; आगृ १, ७, २१; आमिगृ २,
४, १० : १३; ५, २ : १; ६ : २४;
बौगृ २, ९, २३; ३, ६, १; भागृ
३, १३ : ६; वैगृ २, १३ : ३;
जैगृ २, ७ : १; वाध १०, २३;
आपध २, ४, १४; हिध २, १,
६७; -रेषु शंघ १६९; बौध ३,
४, ३.

अगार-दहन- -ने बौश्रौ २९, १ :
११.

अगार-दाह- -हे आश्रौ ३, १३, ४.

अगार-प्रवेश- -शम् भागृ २, ४ : १.

अगार-मध्य- -ध्ये आमिगृ २, ५, २ :
१; बौगृ ३, ६, १.

अगार-स्तप- -पे आपगृ १९, ७.

अगार-स्थूणा-विरोहण- -णे आपगृ
२३, ९.

अगारा(र-अ)न्त^१- -न्तात् पा ४, ४,
७०.

अगारा(र-अ)वकाश- -शम् आपगृ
१७, १.

अगारै(र-ए)कदेश- -शो पा ३, ३,
७९.

अ-गार्ग्य-काश्यप-गालव^१-

-वानाम् पा ८, ४, ६७.

अ-गिल^२- -लस्य पावा ६, ३, ७०.

अ-गीत- -तम् निसू २, १ : १२.

अगीतो(त-ऊ)ह^३- -हाः निसू २,
१ : २५.

१अ-गुण^४- -णः काश्रौ ६, ७, २३;
-णम् विध ९, ७; -णात् मीसू

a) व्यप. (अगस्त्य-पत्नी-)। पुंयोगात् ङीष्न्ते यलोपः। पाम. पाका. तु आगस्ती- (गोत्रापत्येऽणि [पा ४, १, ११४] ङीपि) इति विशेषः। b) नाप. (अगस्त्यपुत्र-, सूक्त-)। गोत्रापत्ये यणि प्र. य-लोपः। सूक्तपक्षे (शांश्रौ) तेनदृष्टीयः अण् प्र. (पा ४, २, ७) इति विशेषः। c) विप. (उत्तरा-प्रोष्ठपदा-)। सास्यदेवतीयेऽणि ङी. ङीपि यलोपः (पावा ६, ४, १४९)। d) शैषिके ङे य-लोपः (तु. पासि.; वैतु. पाम. पाका. प्रभृ. आगस्त्य-> आग° इति)। e) विप.। बस.। आग° इति आपश्रौ पाठः ऐकान्तिकः। f) नाप.। षस.। उप. पाठः? भगिनी-> [अपत्यार्थे] °भागि- न्येय-> -यानाम् इति शोधः। g) द्रस.। h) नाप. (शास्त्र-विशेष-)। i) विप.। बस.। j) उप. गाथा-द्र.। k) नाप. व्यु.। l) तस. > द्रस.। m) तस.। उप. = गिर- (< √ गृ निगरणे)। n) विप.। बस.। उप. = वैशिष्य-

२,३,६ ^० ; -गे मीस् २,२,२४.	२,१०,१८; आपश्रौ ७,१६, ७.	३,३,१ : ७.
१ अगुण-स्व- स्वात् मीस् १०, ७, ४४.	अ-गृह-पति-, °हपति-क- पा ६, २,१६०.	अ-गोत्रा(त्र-आ)दि ^० - -दौ पा ८,१, ६९.
अगुणा(ण-आ)स्थान ^० - -नम् काश्रौ १२,४,२०.	अ-गृहीत ^क - -तः आपश्रौ १४,२६,११ ^० ; २१,८,१; १७, ६; हिश्रौ १५, ६, २९ ^० ; -तम् आपश्रौ ९, ४, १२; -ताः आपश्रौ ११, २०, १० ^० ; बौश्रौ १४, ६ : १३; हिश्रौ ७,८, ५३; -तेषु लुस् १, ११ : ४.	अ-गोत्रा(त्र-अ)र्थ ^० - -र्थम् पावा ४, १,७९.
२अ-गुण ^० - -गे पावा १,४,५१.	अगृहीता(त-अ)मि ^१ - -मेः कप्र ३, ४,१४.	अ-गोपुच्छ-संख्या-परिमाण ^० - -णात् पा ५,१,१९.
२अगुण-स्व- -स्वम् मीस् ११, १, १५.	अ-गृहीत्वा शांश्रौ १३,११, २; काश्रौ २५, १३, ३०; बौश्रौ १४, ६ : १३; २९, ४ : १.	†अ-गोरुघ ^क - -धाय आश्र १,१,४.
३अ-गुण ^० -	अ-गृह्यत् -ह्यतः विध ६,१०.	अ-गोष्पद ^१ - -दम् कौस् ३९, २३; कृत ४,६,१०.
३अगुण-स्व- -स्वम् पावा ७, ३, ८५.	अ-गृह्यमाण-कारण ^० - -णः वाध १, ७; आपध १, १२, ८; हिध १, ४, ८.	अ-गोह्य ^क - -ह्यः या ११, १६; -ह्यस्य या ११, १६ ^० .
अ-गुण-विधि- -धिः पावा १,२,१.	अ-गृह्यमाण-विशेष ^० - -वाणाम् मीस् ११,१,६७.	अ-गौ-पूर्व ^० - -र्वे भाशि ९०.
अ-गुप्त-दार ^० - -रः शंघ ३७८.	१अ-गो ^क - -नाम् पाश्र ३, ११, १; -गौः हिश्रौ ६,८,८.	अ-गौपवन ^० - -नम् काश्रौ १०,२,२०.
अ-गुरु ^० - -रवे आमिष्ट ३, ७, ३ : २६; बौपि २, २, ३; आपध १, १४,१५; हिध १,४, ४७; -रोः आमिष्ट २, ७, १ : १; २; वाध १४, २०; -रौ पावा ३, १, १००.	२अ-गो ^क - †अगो-ता- -ताम् आपश्रौ १६, १६,१; वैश्रौ १८,१४ : ४.	अ-गौरा(र-आ)दि ^० - -दयः पा ६,२, १९४.
अ-गुरु-गवी ^१ - -वीनाम् आश्र २, १०,८.	अ-गो-प्रापण ^० - -णम् काश्रौ ५, १०,१६.	†अग्धा(ग्ध-अ)द् ^क - -ग्धात् बौश्रौ ४, ११ : १२; १६ : २०; १४, १३ : १९.
१अ-गुरु-तल्प ^० - -ल्पे आपध १,२१, १०; हिध १,६,४०.	अ-गो-त्रा ^१ - -त्रात् पा ४, १, १५७; पावा ४,१,१५८; -त्रान् आमिष्ट	अज्ञा ^० , अगनाथी- अग्नि- द्र.
२अ-गुरु-तल्प ^० - -ल्पः गौध २१,८.		अग्नि ^क - पागं ४, २, ९०; ८, ४, ३९; -ग्नयः आपश्रौ ५, १८, १ ^{२०} ; हिश्रौ ३, ४, ५४ ^{२०} ; -० ^० ग्नयः आश्रौ ५, ३, १५ ^{४०} ; शांश्रौ ६, १३, ११ ^० ; काश्रौ ९, ८, २३ ^० ; वैताश्रौ १८, ८ ^{३०} ; -†ग्नये शांश्रौ ९, २३, ३ ^० ; आपश्रौ १०, ८, ५ ^० ; १६, ८, १३ ^० ; २०, ८, ५ ^० ; माश्रौ १, २, ३, १८ ^० ; वैश्रौ १२, ८ : १ ^० ; हिश्रौ ११, ३, २ ^० ; -न्ना आश्रौ; -०ग्नाइइ
अ-गुरु-प्रयुक्त ^१ - -क्ताः गोगृ ३, १, ३१.		
अ-गुरु(र-उ)पो(प-उ)त्तमा(म- अ)र्थ ^१ - -र्थम् पावा ४,१,७९.		
अ-गृहनीय- -यः या ११,१६.		
†अ-गृभीत ^क - -तः आश्रौ २,१८,१५; बौश्रौ १८,३१ : ५; -ताः आश्रौ		

a) वैतु. कासं. °णा इति । b) तस. । c) = अ-गौण- । तस. । d) तस. । उप. पाप्र. पारि-
भाषिक- । e) तस. > बस. । f) विप. । बस. > तस. उप. टजन्ते ङीप् । g) नाप. । तस. > षस. । h) विप. ।
बस. > षस. । i) विप. । वृस. > तस. । j) तस. > बस. > अस. > नित्यसमासः । k) वैप १ द्र. ।
l) विप. । बस. । m) तस. उप. पू.ष. अलुक् । वा. क्वि. । n) बस. > द्रस. । o) तस. उप. < गोपवन- ।
p) एकतरत्र सपा. मै १,६, २ अग्नये इति पामे. । q) पामे. वैप १ परि. अग्नयः मा ५, ३४ टि. द्र. । r) = सपा.
शांश्रौ १९, २ । माश्र ६, २, १, १७ तु अग्निभ्यः इति पामे. । s) पामे. वैप १ परि. अग्नये मा ४, ७^० टि. द्र. ।
t) पामे. वैप १ परि. अग्नये तै १, १, ८, १ टि. द्र. ।

आपश्रौ; -ग्निः आश्रौ १, ९, ५^{१०};
३, १०, ३१^{१०}; काश्रौ ५, ३, २३^०;
आपश्रौ ३; १३, १^०; २०, १०^०; ४,
९, ३^०; ८, ४, २^१; ९, १२, १९^६;
१८, १२^{१०}; माश्रौ १, ३, ४, २३^{१०};
४, १, २१^०; ७, २, २३^१; ६, १, ५,
२२^{११}; हिश्रौ ११, ७, ५४^१;
जैश्रौका १९^{११}; शाश्रु १, १७,
९^१; हिश्रु १, २६, ९^६; बौध २, १,
३८^६; -ग्निःऽग्निः माश्रौ ५, १,
२, ६; -ग्निना आश्रौ; -ग्निमिः
शाश्रौ; -ग्निम्यः काश्रौ; -ग्नि-
भ्याम् काश्रौ; -ग्निम् आश्रौ ३,
४, ३^{१०}; शाश्रौ ५, १८, २^{१०};
आपश्रौ १, १४, १२^{१०}; ४, ५^०;
१६, ८, १३^०; माश्रौ १, ४, १,
१३^०; ५, २, ८, २७^{१०}; ६, १, ३,
२०^०; वैताश्रौ २, १३^{१०}; माश्रु १, ६,
२^०; १३, ४^०; -ग्निम्-ऽग्निम्

शाश्रौ; -ग्निषु आश्रौ; -ग्नी
शाश्रौ; -ग्नीन् शाश्रौ; -ग्नी-
नाम् आश्रौ; -ग्ने आश्रौ १,
२, ७^{१०}; २, १०, ४^{११}; शाश्रौ १, ४,
१३^०; काश्रौ २१, ४, २५^{११};
आपश्रौ २, १२, ६^०; ५, ६, ३^{११};
१३, ४^{१०}; २८, ६^{१०}; ६, १६, १०^१;
१३, १९, १०^१; १४, १७, १^{११};
माश्रौ १, ६, १, ४^{१०}; ७, ३,
१९^०; ८, ४, ३६^{१०}; ६, १, ४,
१५^{१०}; वाश्रौ १, ६, १, २१^०; हिश्रौ
१०, ३, ३३^{१०}; आपमं २, २, १^{१०};
६, १२^{१०}; १९, ७^{११}; शाश्रु १,
२५, ८^१; आग्नि १, १, २: ४^१;
माश्रु १, ११, १२^{११}; २, ४, ५^१;
हिश्रु १, ३, ५^{११}; ६, २^१; २, ११,
१^{११}; कौश्रु ४५, ११^१; -ग्नेः
काश्रौ २, ५, १५^{११}; आपश्रौ १, २४,
५^{११}; माश्रौ १, २, ५, १२^{११}; आपमं

१, २, ७^{११}; २, १, ४^{११}; आश्रु १,
१७, १२^{११}; आग्नि २, ७,
२: २३^{११}; ४: १५^{११}; हिश्रु २,
६, १०^{११}; चाश्रु ४१: २३^{११};
-ग्नेऽग्नेः माश्रौ ५, १, २, ६^१;
९^१; -ग्नी आश्रौ ३, १०, ३१^{११};
आपश्रौ ५, २८, ६^{११}; ९, १८,
१२^{११}.

अग्नायी^{११} - पा ४, १, ३७;
-यी वाश्रु १३, २^{११}; अप ४८,
१३४; वृदे १, ११२; २, ७५; ३,
६; ९२; निघ ५, ३; या ७, ८; ९,
३३^{११}; ११२, ४६^{११}; -ग्नीम्
वृदे ३, ६; या ९, ३४; -यै
शाश्रौ ४, १९, ५.

आग्निः, का^{११} - कः शुश्रु ३, ७७;
४, ११८; -कम् वाश्रु २, २, ३,
१६; वैश्रौ १८, १४: १९;
-कस्य बौश्रौ २६, १०: ३;

a) अग्निहो^० इति पाठः? यनि. शोधः (तु. सपा. माश १, ९, १, २०) । b) सपा. माश्रौ ३, ५, १४
अग्निहोत्रम् इति पाठे. । c) पाठे. वैप १ परि. अग्निः मा ५, ९ टि. द्र. । d) पाठे. वैप. २, ३खण्डे यज्ञम् शा
२६, ६ टि. द्र. । e) पाठे. वैप १ परि. अग्निः काठ ४, १४ टि. द्र. । f) पाठे. वैप १ परि. अग्निः ऋ ६, १६, २८
टि. द्र. । g) पाठे. वैप १ परि. अग्निः तै ३, २, ५, ४^२ टि. द्र. । h) पाठे. वैप १, ८१२ h टि. द्र. । i) पाठे.
वैप १ बृहस्पतिः ऋ १, ९०, ९ टि. द्र. । j) अग्निज्यो^० इति पाठः? यनि. इति च ज्यो^० इति च शोधः (तु. सपा.
मा १३, ४०) । k) सपा. ऋ ७, १, १ अग्निम् इति पाठे. । l) = सपा. मंत्रा १, ४, ८ । पाश्रु १, ९, ५ तु
सूर्यः इति पाठे. । m) पाठे. वैप १, ८१६ b टि. द्र. । n) पाठे. वैप १ वेदिम् काठ ३१, १४ टि. द्र. ।
o) पाठे. वैप १ परि. अग्नये मा ४, ७^१ टि. द्र. । p) प्रक्षिप्तः पाठः इति (तु. काश्रौ ३, १, १२; आपश्रौ
२, १२, १०) । q) पाठे. वैप १ वाताग्रम् तै १, ७, ७, २ टि. द्र. । r) पाठे. वैप १, १५८८ ० टि. द्र. । s) पाठे.
वैप १ स्तुतः शौ १९, ३, १ टि. द्र. । t) अग्नाग्ने इति पाठे अग्ने, अग्ने इति च्छेदः । u) सपा. आश्रौ
२, २, ४ शाश्रौ २, ६, ७ आपश्रौ ६, १, ८ आपमं २, १५, १४ अनन्तम् इति पाठे. । v) पाठे. वैप १
त्वम् ऋ १०, ५९, ५ टि. द्र. । w) अग्ने इति पाठः? अग्ने इति शोधः (तु. सपा. मै ३, २, १; ४,
१०, २ अग्ने) । x) अग्ने इति पाठः? यनि. शोधः । y) पाठे. वैप १ परि. अग्निः काठ ३५, १ टि. द्र. ।
z) सकृत् पाठे. वैप १, ८०९ g टि. द्र. । a^१) पाठे. वैप १ त्वम् ऋ १०, १५, १३ टि. द्र. । b^१) पाठे.
वैप १ परि. अग्ने ऋ १०, ८५, ३८ टि. द्र. । c^१) पाठे. वैप १ परि. अग्नये तै १, १, ८, १ टि. द्र. । d^१) पाठे.
वैप १ परि. अग्नेः तै १, १, १०, १ टि. द्र. । e^१) सपा. मंत्रा १, ६, ७ वायोः इति पाठे. । f^१) पाठः? अग्ने
इति शोधः (तु. सपा. मै १, ४, ३ प्रश्रु.) । g^१) अग्निः इति पाठः? यनि. शोधः (तु. सपा. काठ २२, १५ शौ
४, २३, १) । h^१) सपा. तैत्रा ३, ७, ३, ६ पृथिव्याम् इति पाठे. । i^१) सं. रूपमिति वदन् रुद्रतो भ्रान्तः ।
j^१) वैप १, परि च द्र. । k^१) विप. । तस्येदमाद्यर्थे ठक् ।

-काः बौध्रौ २२,३: २^३; वैश्रौ
१८, ६: ४; -कानाम् बौध्रौ
२६, १०: २५; -कानि काश्रौ
१६, ४, ३०; १८, ५, ५; २०, ४,
९; बौध्रौ १०, ५९: १२; १५,
११: ११; ३६: २३; २६, १:
१८; वैश्रौ १८, ६: ८; -के
काश्रौ २०, ४, ७; -केन बौध्रौ
२२, ३: २३; ३०^३; ९: २८^३.

आग्निर्को-की आपश्रौ
१४, ३३, ९; हिश्रौ १५, ८, ४२;
माश्रु १, २३, ५; -कीः आपश्रौ
१६, ७, २; ८, १३; वाश्रौ २, १, २,
१८; ३, ४, १, ४९; वैश्रौ १८, ४:
१३; १५, ६: १३; हिश्रौ ११,
२, २; ३, २; -कीभिः काश्रु ४४,
३; -क्या आपश्रौ १५, १, ४; २०,
८, ११; -क्याः भाश्रौ ११, १, ४.
आग्निर्का(क-आ) श्वमेधिक-
वर्जम् शुश्रु ४, ५९.

आग्नेय^१- पा ४, २, ३३; पावा
४, २, ८; ३३; -यः आश्रौ:
-यम् आपश्रौ ६, ११,
५^१; -ययोः ऋश्रु २, ३, ६;
-यस्य शाश्रौ; -याः आश्रौ;
-यात् शाश्रौ; -यान् काश्रौ;
-यानाम् काश्रौ; -यानि आपश्रौ;
-याम्याम् हिश्रौ; -याय बौश्रौ;
-ये आश्रौ; -येन शाश्रौ; -येषु
क्षुस्; -यैः वाश्रौ; -यौ आश्रौ.
आग्नेयी- यी शुश्रु २,
२१^१; -यीः आपश्रौ; -यीभिः,
-यीभ्याम् आश्रौ; -यीम्,
-यीषु आपश्रौ; -य्यः काश्रौ

१६, १, २७^१; -य्या शाश्रौ;
-य्याम् आश्रौ; -य्यै भाश्रु;
-य्यौ आश्रौ.

आग्नेय-च्छन्दस्^१- न्दः
निस् ६, १३: ७.

आग्नेय-धर्म(क >) का^१-

-काः काश्रौसं ६: ५.

आग्नेय-पाण्डु-पार्थिव^१- वा-
नाम् पाश्रु २, १४, ९; १२; १४;
१६.

आग्नेय-पावमा(न >) नी^१-
-न्याम् माश्रौ ६, २, ४, ९; वाश्रौ
२, २, ३, १३.

आग्नेय-प्रभृति- -ति बौश्रौ
५, ८: १५; -तीनाम् बौश्रौ ५, ८:
२८; ३५; वाश्रौ ३, १, १, २१;
-तीनि बौश्रौ ५, ६: ९; १६.

आग्नेय-मध्य^१- -ध्यात् वाश्रौ
१, ३, ५, १.

आग्नेय-मरुत्वतीय-पुरो-

डाश^१- शौ हिश्रौ १६, ८, २०.

आग्नेय-मैत्रावरुणै(ए-ऐ)न्द्रै
(न्द्र-ऐ)न्द्राग्न^१- -ग्नम् जैश्रौका
१५२.

आग्नेय-योनि^१- -नि निस्
६, ७: ४२.

आग्नेय-वत् आपश्रौ २, २०,
२; मीस् २, ४, १५; ८, ३, ३;
१०, ६, ७४^१; ७, २५.

आग्नेय-विकार^१- -राः
आपश्रौ २४, ३, ४१; काश्रौसं ६:
१; हिश्रौ ३, ८, ३०; -रान् बौश्रौ
२७, १४: २१; २३.

आग्नेय-विध्य(धि-अन्त >)-

न्ता^१-न्ताः काश्रौसं ७: २^१.

आग्नेय-व्रत^१- -तस्य वैश्रु
२, १०: ५.

आग्नेय-श्यामाक- -कौ
आपश्रौ ६, ३०, १९; वैश्रौ ८,
२: १.

आग्नेय-सं(ज्ञा >) ज्ञ^१-
-ज्ञस्य जैश्रौका १२९.

आग्नेय-सारस्वत-सौम्य-
पौष्ण-बार्हस्पत्य-वैश्वदेवै(व-ऐ)
न्द्र-मारुतै(त-ऐ)न्द्रग्न-सावित्र-
वारुण^१- -गान् काश्रौ ८, ८, २५.

आग्नेय-सौम्य-वैष्णव^१- -वान्
वैताश्रौ १५, १.

आग्नेय-सौम्य-सावित्र-बार्ह-
स्पत्य-त्वाष्ट्र-वैश्वानर^१- -राः
काश्रौ १५, ९, ८.

आग्नेय-स्थालीपाक^१- -कः
बौश्रु २, ६, २३; द्राश्रु २, २, १^१;
-कम् वैश्रु ६, १४: १०;

आग्नेया(य-आ)गनावैष्णव^१-
-वौ शाश्रौ ३, ११, ७.

आग्नेया(य-अ)ग्नीषोमीय^१-
-यौ वैताश्रौ ३, ४.

आग्नेया(य-अ)ग्नीषोमी-
य-वत् मीस् ११, ४, १८.

आग्नेया(य-आ)दि- -दि वैश्रु
१, ११: ६; -दीनि आपश्रौ १९,
२३, १०; २५, १४; २२, २५, ३;
७; वैश्रौ ८, ११: ५; हिश्रौ २२,
४, ७; १९; ५, १; २५; २३, ४,
२; ४.

आग्नेया(य-आ)य- -द्ये कश्रु
३, ६, १०.

a) वैप १, परि. च द्र. ।

b) पासे. वैप १, ७८५ C टि. द्र. ।

c) पाठः? श्वीम् इति शेषः? ।

d) आग्नेयः इति पाठः? यनि. शेषः ।

e) कस. वा तस. वा ।

f) बस. ।

g) दस. ।

h) वैप १ द्र. ।

i) तस. ।

j) दस. > कस. ।

k) समाहारे दस. ।

l) कासं. नोपलभ्यते ।

m) नाप. ।

n) तस. >

o) कस. ।

p) 'आग्नेयः स्थालीपाकः' इत्यपि पाठः ।

आग्नेया (य-आ) ष (दि-अ)

न्त^१- न्तम् वैगृ १, ९ : १५;
१४ : ४.

आग्नेया(य-अ)न्त^२- न्तम्
वैगृ १, ११ : ६; -न्ते काश्रौ
२४, ३, ३६.

आग्नेया (य-आ) श्विन-वैष्णव-
सौम्य-सावित्र-धात्र-मारुत-बाह-
स्पत्य-मैत्र-वारुणै (ण-ऐ) न्द्रवैश्व-
देव^३- वा: काश्रौ २३, २, १८.

१ आग्नेयै (य-ऐ) न्द्र^४- न्द्रः
शाश्रौ ३, ११, ११.

२ आग्नेयै (य-ऐ) न्द्र^५- न्द्रौ
शाश्रौ ९, २४, ७.

आग्नेयै (य-ऐ) न्द्र-वैश्वदेव-वै-
ष्णव^६- वा: वैश्रौ १७, ५: ५.

आग्नेयै (य-ऐ) न्द्राग्न^७-
-ग्नयो: हिश्रौ ४, ५, ६४.

आग्नेयै (य-ऐ) न्द्राग्नै (म-ए)
कादशिन^८- ना: आश्रौ ९, २,
२०.

अग्ना-पवमान^९- > आग्निपावमा-
(न>)नी^{१०}- नीभि: वौश्रौ ३,

८ : ३; १६; १७; २०, २० : २६;
२७; ३१; भाश्रौ ५, १०, ८^{११};

६, १, १०^{१२}; हिश्रौ ६, ६, १२;
काश्रौ २५, १९; -नीभ्यः बौश्रौ

२०, २० : २९; -नीभ्याम्
आपश्रौ ४, १६, २; ६, १९, १;

बौश्रौ ३, २१ : १६; वैश्रौ २,
७ : ५; हिश्रौ ६, ४, २६; ६,

१७; -न्यः बौश्रौ २०, २० : ३३.

अग्ना-पूषन्^{१३}- > आग्नापौष्ण^{१४}-
-ष्णः काश्रौ १५, २, १४; -ष्णम्

या ७, ८.

अग्ना-मारुत^{१५}- > आग्निमारुत^{१६}-

-तम् आश्रौ ५, २०, २; ७, ४, १३;
७, २; ४; ८^{१७}; ८, ८, ४; ६; ९; ९, ७;

१०, ३; ११, ४; ९, ५, ५; शाश्रौ
८, १४, ६; ९, १, ११; ११, ६, ६,

८; ७, १२; ८, ७; ९, ८; १८,
२३, १; आश्रौ १३, १५, १२;

माश्रौ २, ५, २, २३; ५, २, ६,
२१; वैश्रौ १६, १९ : १; निस्

३, १ : १८; ऋअ २, १, १९;
वृदे १, १०२; -तस्य शाश्रौ ८,

६, १; ७, २०; -ता: शुप्रा ५,
२२; -तात् आश्रौ ५, २, १३;

शाश्रौ ९, १, ८; वैताश्रौ २०,
११; -ते आश्रौ ७, १, १४; ८,

४, १२; ९, ६, २; १०, १६; १०,
१०, ७; शाश्रौ ८, ७, ११; १०,

२, ९; ३, १५; ४, १५; ५, २४;
६, १९; ८, १५; ९, १७; १०,

८; ११, ९; वृदे ३, ७५; या ७,
२३; -तेन वाश्रौ ३, २, ४, ७.

आग्निमारुती- ती ऋअ

२, ८, १०३; साअ १, १७.

आग्निमारुत-काल- ले काश्रौ
२०, ४, २८.

आग्निमारुत-याज्या- होम^{१७}-
-मम् वैताश्रौ २३, ८.

आग्निमारुत-सूक्त^{१८}- -क्तानि
शाश्रौ १८, २३, १५.

आग्निमारुत-स्तोत्र-पुरस्तात्
काश्रौ १८, ६, १६.

अग्ना-विष्णु^{१९}- पाग ५, २, ६१^१; -ष्णु
आश्रौ २, ८, २; ४, २, २; बौश्रौ

१३, ३१ : २; २१, २३ : ११;

शुअ ४, १७०; -ष्णु आश्रौ
२, ८, ३^२; ५, १९, ३; शाश्रौ २,

४, ३^३; आश्रौ २, १३, ७; १७,
१७, ८; १९, १३, ४^४; बौश्रौ

१, १५ : १७; २, २१ : ११; १२;
३, २८; ७; १०, ५४ : ५; १३, १५ :

५^५; ९^६; १६ : ६^७; ३१ : १५^८;
१९, ५ : ४; भाश्रौ २, १३, ७;

माश्रौ १, ३, १, १३; ५, १, १,
३३; ६, २६^९; ३१; वाश्रौ १, १,

५, १५; ३, ४, ८; २, २, ४, ३;
वैश्रौ १, १७ : १०^{१०}; ६, ३ : ५;

१९, ६ : ११४; हिश्रौ २, १, १९;
१२, ६, १; २२, ३, ४^{११}; ५, २^{१२};

२३, २, ४०; वैताश्रौ ८, १^{१३};
कौस् ३२, ३^{१४}; ५९, १९^{१५}; चाअ

४१ : २; ११^{१६}; अअ ७, २९; अर्प
२ : ६६; -ष्णवो: बौश्रौ २७,

१४ : १७.

आग्नावैष्णव^{१६}- पा ५, २, ६१^१;
पावा ६, ३, २८; -वः शाश्रौ २,

४, २; ९, २४, २; १५, १६, ३;
काश्रौ ४, ५, २१; ७, २, २३; १५,

२, १२; वाधूश्रौ ४, २२ : १४;
२३ : २; २४ : १; २७ : १; वाश्रौ

२, १, २, १६; हिश्रौ ११, ६, २२;
२२, ३, ५^१; -वम् आपश्रौ ३,

१६, ५; ५, २२, ६; २३, ४; ७, १,
३; ८, १९, ५; ९, १४, १०; १०,

४, २^२; १८, १०, ५; बौश्रौ २,
२१ : ८; ६, ३ : १५; १०, १२ :

१२^३; १२, २ : २; ४ : २४; १३,
१५ : १; ७; ९; १६ : ४; ३१ :

a) तस. > द्रस । वा. क्वि. द्र. । b) वस. । c) द्रस. । d) कस. । e) ष्यै^० इति पाठः ?

(तु. भाष्यकृत ष्य > ष्यी-) यनि. श्लोघः । f) वैप १, परि. च द्र. । g) ष्यव^० इति पाठः ? यनि. श्लोघः ।

h) विप. । इत्वप्रतिषेधे पूष्णः उरसं. (पावा ६, ३, २८) । शिष्टं वैप १, ३२ f द्र. । i) कस. > तस. । j) ष्यु

इति पाका. । k) सकृत् पाभे. वैप १, ८२९ g द्र. । l) आग्नावैष्णव इति पागम. ? ।

८; १७, ४७: ६; २३, २: ११;
 २५, ६: १; भाश्रौ ५, १५, १०;
 ७, २, १२; ९, १४, २; १०, ३,
 ६^३; माश्रौ १, ५, ६, ५; १९; ८,
 १, २; २, १, १, १६; ५, १, ६,
 २३; ३०; ३२; २, २, २; ६,
 १, ३, १८; वाधूश्रौ ४, २२: १४;
 १५; २३: ३; ६; २४: ३; २६:
 १४; १११: १; वाश्रौ १, ४,
 ४, २८; ४२; ६, १, ४; वैश्रौ १,
 १७: ८; १०, १: ७; १२, ५:
 २; १८, ६: १०^३; हिश्रौ ३, ५,
 १७; २२; ४, १, ५; ७, १, १७^३;
 ११, ३, १^३; १३, ३, ४४; १५,
 ४, १८; २२, ३, ४^३; वैताश्रौ ८,
 १; ११, ७; या ७, ८; -वस्य
 माश्रौ ५, १, २, ४; ६, २६; ३५;
 वैश्रौ १, १७: ११; -वा: बौश्रौ
 २४, १०: ७; वैताश्रौ ३७, ८;
 -वात् माश्रौ ५, १, १, ३४;
 वाधूश्रौ ४, २५: २; -॥वे काश्रौ
 १५, १, ११; -वेन आपश्रौ २०,
 ८, १०; बौश्रौ १७, ४७: १०;
 वाधूश्रौ ४, २२: ६; १३; २६:
 २१.

आग्नावैष्णवी- वी
 आश्रौ ३, १, ४; शाश्रौ ५, ३, १;
 ६, १, २२; वैश्रौ २०, २: १४;
 -वीम् आपश्रौ ७, १२, ३; १०,
 १६, ३; बौश्रौ २८, ७: १;
 भाश्रौ १०, ७, ६; माश्रौ २, १,
 २, ३८; हिश्रौ १०, २, १५;
 -व्या शाश्रौ १४, ६, ६; काश्रौसं
 २८: २४; बौश्रौ ८, १४: ८;

वैश्रौ १०, १: ८; १६, १६: ५;
 हिश्रौ ४, १, ७.

आग्नावैष्णव-वैश्वानर^३- रौ
 काश्रौ १६, ४, २८.

अग्ना-सवितृ^३-> आग्निसावि(त्र>)
 त्री^३- -त्री ऋश्र २, ९, ६७^३; वृदे
 ६, १३२.

अग्ना-सूर्य- > आग्निऋष्य- >
 आग्निऋषी- -री ऋश्र २, ८,
 ५६.

अग्नि-कम्पित- -तम् अप ६२, १, ९.

१अग्नि-कर्मन्^३- -र्मं या ७, ८;
 -र्मणा काठश्रौ १०३; या ७,
 २३; -माणि आपश्रौ ५, ७, ८.

२अग्नि-कर्मन्^३- -र्माणः अप ५७,
 १, ५; या १०, ३०.

अग्नि-कलि- -लिभ्याम् पावा ४,
 २, ८.

अग्नि-कल्प^३- -ल्पः बौश्रौ २४, ६:
 १०; हिश्रौ १६, १, ४; -ल्पम्
 बौश्रौ २२, १: १.

अग्नि-काञ्चन-वर्चस^३- -र्चसः अप
 २, ६, ५.

अग्नि-कार्य- -र्यम् वैश्र ३, १: ६;
 शंघ ४४३; आज्यो ८, २; -र्ये
 आग्निगृ २, ७, १: २; शंघ
 १३२.

अग्निकार्य-पर- -रः शंघ ३९०.

अग्निकार्य-लोप^३- -पे आग्निगृ
 २, ७, ४: ६; बौश्र ४, ११, १;
 -पेन आग्निगृ २, ७, ५: २.

अग्नि-काल^३- -ले वागृ १४, ४.

अग्नि-कुण्ड^३- -ण्डम् वैश्र १, ८:
 १३; ४, १: ५; वैश्र २, १, ७;

-ण्डानि वैश्र २, ३, ५; -ण्डे
 वैश्र ६, १४: ६.

अग्नि-केतु^३- -तुः प्रागृ ३, ३, ५१.

अग्नि-गण^३- -णस्य चाश्र ८: २;
 -णानाम् चाश्र २: १८.

१अग्नि-ग(र्भ>)र्भा^३- -र्भा आपर्म
 १, १२, ५; कौश्र १, १२, ५; शागृ
 १, १९, ४; बौश्र १, ७, ३८; हिगृ
 १, २५, १.

अग्नि-गीत^३- -तः नाशि १, ५, १३.

अग्नि-गृह^३- -हान् अप्राय ५, ४.

अग्नि-गो-दान^३- -नः आग्निगृ २, २,
 ५: २२; आपगृ १६, १३; बौश्र
 ३, २: ५७; भागृ १, १०: १३;
 वागृ ९, १^३; हिगृ २, ६, १८.

अग्नि-ग्रहण^३- -णम् बौश्रौ २२, ४:
 ५; २३, १५: ९; १३.

अग्नि-चंतुर(१-अश्र>) श्रा^३-
 -श्राम् बौश्रौ २२, ९: १७; १८.

अग्नि-चतुर्थक^३- -कैः अप २३,
 ११, १.

अग्नि-चय^३- -यम् बौश्रौ २५, २७:
 १; -या: बौश्रु १: १; -ये
 बौश्रौ २, १: १५; २३, १९: ३;
 २५, ३: २२.

अग्निचय-वत् वाश्रौ ३, ३, ४,
 ४२.

अग्नि-चयन^३- -नम् हिश्रौ १५, ६,
 ६; बौश्र ३, १: २३.

अग्नि-चित्त^३- पा ३, २, ९१; -चित्
 शाश्रौ ९, २८, १८; बौश्रौ १०,
 ५९: २४; २५, ३२: ३७; माश्रौ
 ६, २, ६, २५; वाधूश्रौ ४, १०५:
 ४; वाश्रौ २, २, ५, १२; २२;

a) द्वस. । b) वैश्र १, ३२ d) द्र. । c) अग्नि^३ इति पाठः ? यत्नि. श्लोचः । d) तस. । e) विप. ।
 बस. । f) विप. । बस. । पूष. द्वस. । g) विप. । तृस. । h) विप. । अग्निऋषीणां च यत्निमेव गोदानं यस्मैति
 बस. । i) सपा. भागृ १, २१, १३ अग्निर्गोदानिकः इति पाठे. । j) नाप. । षस. । k) विप. । बस. उप.
 द्विस. । l) विप. । बस. । समासान्तः कप् प्र. द्र. । पूष. = अग्नीध्- । m) नाप. (आहिताग्नि-) । उस. ।

वैश्रौ १८, १:२; वैताश्रौ ३०, १; -चित्तः आपश्रौ १६, १०, ६; वैश्रौ १८, ७:२२; आग्निम् ३, ७, ३:२९; बौपि २, ३, २; हिपि १२:९; -चित्तम् कप्र २, १०, ८; -चित्तम् आग्निम् ३, ७, ४:६; बौपि २, ३, १६.
 अग्निचित्-सोमयाजि- सोमाति-पूत-सोमवामिन्- -मिनाम् काश्रौ १९, १, २.
 अग्निचिद्-युक्त- -क्तम् मीस् ५, ३, २६.
 अग्नि-चित्ति- > आग्निचित्तिक^१- -क्ते माश्रौ ५, २, १०, ९.
 अग्निचित्त्य^२- -त्यः बौश्रौ ९, १८:५.
 अग्नि-चित्त्य, त्या^३- -त्या आपश्रौ १४, २३, ९; वाधूश्रौ ४, ११३:७; पावा ३, १, १३२; -त्यायाम् शाश्रौ ८, १५, १०; आपश्रौ १८, ६, ६; माश्रौ ५, २, १५, २९; १६, २१; वाधूश्रौ ४, १०२:१८; हिश्रौ १३, २, २०; १७, ३, ११; द्राश्रौ १४, ३, १३; लाश्रौ ५, ७, १०; -त्ये वैश्रौ १७, १६:३.
 अग्निचित्त्या-संयुक्त- -क्ते आश्रौ ३, ४, १२.
 अग्नि-च्युति- -त्ते: कप्र १, ८, ६.
 अग्नि-ज^४- -जा: अत्र १०, ४.
 अग्नि-जन्मन्- -न्म या ११, १७.
 अग्नि-जा^५- -जा: आपश्रौ १५,

२, १; बौश्रौ ९, २:२६; भाश्रौ ११, २, ७; वैश्रौ १३, २:२; हिश्रौ २३, १, १०.
 अग्नि-जिह्व^६- -ह्वः विध १, ३; -ह्वा: आपश्रौ १४, १६, १; हिश्रौ १५, ५, १; गौपि २, ३, ७; अप्राय ६, १; -ह्वेभ्यः बौश्रौ ७, ४:१४.
 अग्नि-ज्येष्ठ^७- -ष्ठेभ्यः आपश्रौ ४, २, २; भाश्रौ ४, २, ६; वैश्रौ ३, २:१०; हिश्रौ ६, १, १९.
 अग्नि-ज्योत्सि^८- -त्सिषम् आश्रौ २, ३, १५; काश्रौ ४, १४, १३; आपश्रौ ६, ९, ४; बौश्रौ ३, ६:१; वैताश्रौ ७, ९; अप ४५, १, १८.
 अग्नि-तनू- -नू: आपश्रौ ५, १३, ७; भाश्रौ ५, ७, ९; वैश्रौ १, १२:१२; हिश्रौ ३, ४, २७.
 अग्नि-तस- -सम् शंघ ३८९; -सै: अप १, ६, २.
 अग्नि-तस(:) अप ५४, १, ५.
 अग्नि-तीर्थ^९- -र्थम् आग्निम् २, ६, १:८.
 अग्नि-नुण्ड^{१०}- -ण्डै: विध ४३, ३४; अग्नि-त्रय- -यम् विध २१, ५; -येण हिपि २३:५.
 अग्नि-त्रेता- -तया आग्निम् ३, ७, ४:२३; बौपि २, ४, ६; -तायाम् हिपि २३:१०.
 अग्नि-द्व^{११}- -द्व: वाध ३, १६; शंघ २०१; ३२८; विध ४५, १७;

-दा: शंघ ४४०.
 अग्नि-दक्षिणा^{१२}- -णा: आपश्रौ १९, १५, १३; बौश्रौ १०, १२:१; हिश्रौ २३, ३, ३३^३; -णाम् बौश्रौ ९, १७:४०.
 अग्नि-दग्ध^{१३}- -ग्ध: वैग् ५, ११:३; -ग्धा: आश्रौ २, १९, २२; कौग् ३, १०, २०; शाग् २, १४, १८; बौग् २, ११:४२; गौपि २, ४, १९; अप ४४, ४, ३.
 अग्नि-दत्त- (> आग्निदत्तेय- पा.) पाग ४, २, ८०.
 अग्नि-दान- -नम् कप्र ३, ४, १४.
 अग्नि-दीक्षणीया^{१४}- -याम् बौश्रौ १०, १२:११; १५, १३:२; -यायाम् बौश्रौ २४, ११:४; ३३:१८.
 अग्नि-दीक्षा- -क्षा बौश्रौ १७, २३:१; -क्षा: बौश्रौ १५, १३:८.
 अग्निदीक्षा(क्षा-आ)हुति- -ती: बौश्रौ १०, १२:१६.
 अग्नि-दूत^{१५}- -त: हिपि १८:३; -ता: शाश्रौ ८, २१, १.
 अग्नि-देव- > आग्निदेवि^{१६}- -वि: बौश्रौ ४१:१६.
 अग्नि-देवत, ता^{१७}- -त: वृदे ८, १११; -ता वृद ३, ९७.
 अग्नि-देवता^{१८}- -ताम् शुश्र ४, २०२.
 अग्निदेव(त्य >) ग्या^{१९}- -त्या: अप १, ४, १; -त्याम् शुश्र २, ३७.

a) द्रस. । b) नाप. (ग्रन्थ-विशेष-) । ठञ् प्र. (पा ४, ३, ६८) । c) विप. । प्राग्दीव्यतीयः ष्यः प्र. डसं. (पा ४, १, ८५) । यद्वा अग्नि-चित्त्या- + तस्येदमीयः अण् प्र । d) भाप. । तस. । e) वैप १, परि. च द्र. । f) तस. । g) विप. । बस. । h) वैप १ द्र. । i) नाप. (हस्त-मध्यभाग-) । j) नाप. । अर्थः ? । बस. । k) नाप. (आतताधि-विशेष-) । उस. । उप. < √दा (दाने) । l) नाप. । तस. । उप. = दीयमान-वस्तु- इति । m) नाप. । तस. । n) व्यप. (ऋषि-विशेष-) > अपत्ये इञ् प्र. (पा ४, १, ९५) । o) कस. । p) विप. । तादितः यच् प्र. ।

अग्नि-देव-ब्राह्मण-संनिधि^a - चौ
विध ७१, ६०.
अग्नि-दैवत्य, त्या- -त्यः विध ८९,
१; -त्यम् आग्निगृ २, ४, १२:
१; वैगृ ६, १९: ४; वृदे २,
१४५; -त्याः वैगृ २, २: ४.
अग्नि-धन्वन्तरि^b -री मागृ १, १८,
८; वागृ ३, १२; जैगृ १, २४:
१; कागृ ३६, १४.
अग्नि-धमन- -नम् कप्र १, ९, १४.
अग्नि-धर्म- -र्मः मीसू ९, १, २६.
†अग्नि-धान^c -ने मागृ २, १७, १;
वृदे ८, ६८.
अग्नि-धिष्णिय- -यान् बौश्रौ १०,
५५: २; -यानाम् बौश्रौ २२,
११: १.
अग्नि-नक्षत्र^d -त्रम् अप १, ९, ५.
अग्नि-नित्य-धारित्^e -री काश्रौ ४,
१०, १६.
अग्नि-निधान^f -नम् बौगृ ३, ५: ६;
-नात् काश्रौ ६, २, २; १७, ७, ५.
अग्नि-निवेशन^g -नम् अप ३३,
४, ३.
†अग्नि-नेत्र^h -त्राः बौश्रौ १२,
४: ४; भागृ २, ६: ४; बौध
३, ६, १३; -त्रेभ्यः काश्रौ १५,
१, १८; शुश्र १, ५८९.
†अग्नि-न्य(क्त)क्ताⁱ -क्ताः
आपश्रौ ५, २८, १३; वैश्रौ १,
२०: १०.
अग्नि-पति- -तये आपश्रौ ६, १, ८.
अग्नि-पद^j -पाग ५, १, ९७; -दम्
बौश्रौ २०, १७, ९; द्राश्रौ^k १२,

४, १०; १४; लाश्रौ ४, १२, ८;
९; वैताश्रौ ५, ११; ६, ६.
आग्निपद- पाग ५, १, ९७.
अग्निपदा(द-आ)दि- -दिभ्यः
पावा ५, १, ९७.
अग्नि-पर- -रः तैप्रा ११, १५.
अग्नि-परिचर^l -रः बौश्रौ २६,
५: ४.
अग्नि-परिचरण^m -णम् वैध १, ५,
४; ५.
अग्नि परिचर्याⁿ -र्या शंध ४१;
-र्या बौगृ १, ७, १०.
अग्नि-परिमाण^o -णम् वाश्रौ ३,
२, १, २२.
अग्नि-परिस्तरण^p -णम् वैश्रौ ३,
९: ११; हिश्रौ^q १, ४, १६; वैताश्रौ
७, ४.
अग्निपरिस्तरणा(ण-आ)दि- -दि
वैश्रौ १६, २३: ४.
?अग्निपशुकेतन^r -नानि आश्रौ
३, ६, २३.
अग्नि-पितृ-मातृ-सुत-दार^s -राणाम्
विध ३७, ६.
अग्नि-पीत^t -तस्य आपश्रौ १३,
१४, १४; वैश्रौ १६, १८: ६.
अग्नि-पुच्छ^u -च्छस्य आश्रौ ४,
८, २५; १०, १०; माश्रौ ६, २,
५, ३०.
अग्नि-पुत्र^v -त्र कागृ ४१, १७†;
-त्राणाम् अप ५५, ३, ३; -त्रान्
अप ५५, ३, १; -त्राय अप २०,
६, ५†.
अग्नि-पुरः सर^w -रम् कप्र ३, २, ६.

अग्नि-पुरोगम^x -मान् अश्र १, ९.
अग्नि-पूजा^y -जा आपध १, ४, १७;
२, २५, ७; हिश्र १, १, १३६;
२, ५, १८५.
अग्नि-प्रकम्पित^z -तम् अप ६२,
१, ५.
अग्नि-प्रचरण^{aa} -णम् पागृ २, ५,
११.
अग्नि-प्रजापति^{ab} -ती वाधूश्रौ ४,
१०९: १.
अग्नि-प्रणयन^{ac} -नम् आश्रौ ३, १,
७; ४, ८, २९; १२, ४, १३;
शाश्रौ ५, १२, १; ५; बौश्रौ १९,
५: ३२; १०: ५८; माश्रौ ६,
२, ५, ४; वाश्रौ १, ७, २, ५; वैश्रौ
१४, ४: २०; हिश्रौ ५, २, १७;
कप्र ३, ९, ७; -नात् बौश्रौ १९,
५: २; वैश्रौ १३, १८: ३;
-नानि माश्रौ १, ५, ३, १९; ४, ७;
१२; ७, ३, ३३; ३९; ४१; २, २,
४, १५; २१; वाश्रौ १, ४, ३, ८;
हिश्रौ ३, ४, १३; ४, २, १; ७, ८,
१९; -ने आश्रौ ३, १३, ३; हिश्रौ
५, २, ८; -नेषु द्राश्रौ १३, १, ७;
लाश्रौ ५, १, ७.
अग्निप्रणयन-काल- -ले माश्रौ
५, १, ३, १२.
अग्निप्रणयन-प्रभृति- -ति माश्रौ
५, १, ४, ९.
अग्निप्रणयन-मन्त्र^{ad} -न्त्रैः अप
३७, ११, १.
अग्निप्रणयना(न-आ)दि- -द्वयः
शाश्रौ ६, १, २१; -दि आश्रौ

a) द्वस. > तस. । b) द्वस. । c) वैप १, परि. च द्र. । d) = कृत्सिका- । मध्यमपदलोपी कस. ।

e) 'नित्यम् अग्निं धारयति' इति मयूरव्यंसकादिसमासः । f) तस. । उप. भावे अधिकरणे च ह्युद् प्र. । g) उप.
भावे ह्युद् प्र. । h) विप. (ऋच्-) । बस. उप. भाप. [=अ-व्यक्ति-] < न्य(नि)ञ्ज । i) नाप. (अश्च-) ।
बस. । j) आ^o इति भाष्यकारः? । k) नाप. । उस. उप. ट-विधौ परि-पूर्वत्वम् उंसं. (पा ३, २, १७) । l) षस. ।
उप. भाप. । m) समासैः अर्थश्च? । n) विप. । तृस. । o) तस. । p) विप. । बस. ।

१२,४, १०; आप्रथौ १९, १३,
१; हिथ्रौ २३, २, ३८.

अग्निप्रणयनादि-नु(ल्य>.)-

ल्या°- -ल्याम् काश्रौसं २८:३.

अग्निप्रणयनीय,या- -यम् वैश्रौ

१४, १५:४; -या: आश्रौ २,

१७, २; शाश्रौ ३, १४, १३;

-यान् वैश्रौ १, १२:१; १०,

५:४; १४, १५:३; -याया:

आश्रौ १, २६; माश्रौ ५, २, ८, २.

अग्नि-प्रणाम°- -मम् वैगृ ३, ३:१२.

अग्नि-प्रतिष्ठापना (न-आ) दि°- -दि

आग्निगृ १, ६, ३:५८.

अग्नि-प्रतिष्ठापना(न-आ)प्त°- -न्तम्

अप ३०, १, १४.

अग्नि-प्रथम°- -मा: आप्रथौ ११,

१७, ३; बौश्रौ ६, ३०:२२;

१०, २७:१३; वैश्रौ १४, १५:

७; हिथ्रौ ७, ८:२०.

अग्नि-प्रदान-मन्त्र°- -न्त्र: कप्र ३,

४, ७.

अग्नि-प्रवेश°- -शात् वाध २९, ४.

अग्नि-प्रहरण- -णम् वाधूश्रौ ४,

३२:१०.

अग्निप्रहरणा(ण-अ)न्त°- -न्तम्

वैश्रौ १०, १०:७.

अग्नि-प्राप्त°- -सम् काश्रौ २२, ६,

१७; -स्ते काश्रौ १८, ५, १.

अग्नि-प्लुष्ट°- -ष्टे विध ७०, ११.

अग्नि-बलि°- -लिम् आग्निगृ २, ६,

५:८.

अग्नि-बीज°- -जेन आग्निगृ २, ५,

६:१९.

अग्नि-ब्राह्मण- गणिका- पूर्णकुम्भा-

(म्भ-आ)दर्श-च्छत्र-ध्वज-पताका-

श्रीवृक्ष-वर्धमान-नन्धावर्त°-

-तान् विध ६३, २९.

अग्नि-भक्ति°- -क्तीनि या ७, ८.

अग्निभक्ति-स्तुत- -तान् वृदे

१, ७७.

अग्नि-भय°- -यम् गोश्रु ४, ७, २१;

अप १९, १, ८; ७०°, २०, ५; २१,

४; -ये अशां १७, १.

अग्नि-भाण्ड- -ण्डम् हिपि १२, ९.

अग्नि-भूत- -त: वृदे १, ६७; -तम्

वृदे १, ६४.

अग्नि-भूतपती(ति-इ)न्द्र°- -न्द्रान्

अश्र २, १४.

अग्नि-मत्- -मती शाश्रौ १४, २९, ८;

-मते शाश्रौ ३, ४, १; काश्रौ २५, ३,

१३; माश्रौ ३, ३, ४; ५, १, २, १३;

अप्राय २, ७; ५, ४; अप २२, ९,

४; -मान् कप्र १, ६, १; २, १०,

१३; ३, २, १६; ४, ४; ५, १२.

अग्निमती- -त्याम् वैश्रौ १४,

५:१.

अग्नि-मन्थ°- -न्थेन माश्रौ ४, १, २२

१अग्नि-मन्थन°- -नम् आश्रौ ३, १,

१२; ४, ५, २; काश्रौ ४, ८, १९;

५, १, २१; ८, १, १२; वाश्रौ ३, २,

१, २२; अप २२, १०, १; -ने

आश्रौ २, १४, १६.

अग्निमन्थन-पूर्वे (?विक्) का-

-काम् अप ६८, ५, २८.

अग्निमन्थन-प्रभृति- -ति माश्रौ

५, १, ३, १७.

अग्निमन्थना(न-आ)दि- -दि

काश्रौ २०, ६, १.

अग्निमन्थनादि-समा (न>)-

ना°- -ना आश्रौ २, १७, १३.

अग्निमन्थनीय,या- -या निस्.

३, ९:१५; -या: आश्रौ २, १६,

१; शाश्रौ ३, १३, १५; १७; ५,

७, ५; १५, ४; बौश्रौ २६, १३:

१४; माश्रौ ५, २, ८, २; -यानाम्

शाश्रौ १४, ५१, १२.

२अग्नि-मन्थन°- -नौ या ३, १४.

अग्नि-मारुत°- -तयो: माशि १,

४; याशि १, ५१.

अग्नि-मूहन्ध- पावा ६, ३, ७०.

अग्निम्-ईयाम°- -मस्य लाश्रौ ६,

११, ३.

१अग्नि-मुख°- -खम् वैगृ १, १५:

७; बौगृ १, ३, ३२; -खात् बौश्रौ

१८, ३:५; आग्निगृ २, २, १:

३; २:२; ४, ३:६; ५:७; ६:

१५; ५, २:७; ३:११; ४:४;

६:१७; ७:६; ८:१०; ९:

५; १०:१७; ७, ३:१२; ३,

९, ३:२; १०, ३:२०; ११,

४:६; बौगृ १, ५, २४; ६,

८; ९-१०, ३; ११, ५; २, १, १३;

२-४, ३; ५, ९; ६, ७; ७, १६;

११, २५; ३, १, ४; २, ५; १७;

३०; ४२; ३, ६; ५, ९; ६, २; ७,

१२; ४, ३, २; ४, १; ३; १२, ३;

बौपि २, ७, २; बौध २, ८, ७;

३, ४, ३; ७, ११; ८, ८; -खे बौगृ

२, ११, ४८; वैगृ ३, २:५.

अग्निमुखा(ख-अ)न्त- -न्तम्

आग्निगृ २, ५, १:२२.

२अग्नि-मुख,खा°- -खा: बौश्रौ

a) तृस. यद्रा बस. । b) तस. । c) बस. पूष. षस. । d) विप. । बस. । e) नाप. । चस. ।

f) नाप. । षस. । g) दस. । h) पंस. । i) नाप. । अर्थ: ? । उस. उप. √मन्थ + करणे घञ् प्र. ।

j) पाप्र. पाठ: ? यनि. शोध: । k) विप. । उस. उप. कर्तरि ल्यु: । l) नाप. (साम-विशेष-) । पूष. द्वि १ द. ।

उप. ? । m) विप. (देव-, देवता- प्रम्.) । बस. ।

२५, २५ : ११; वाश्रौ १, ६, ४, ३१; वाधुश्रौ ३, १९ : २; ४३ : ३; आगृ ४, ७, २२.
अग्निमुखोपधमन-विगृह्यवाद-बहिर-
 गन्धमाल्यधारण-पापीयसावले-
 खन-भार्यासहभोजना(न-अ)-
 ज्ञन्त्यवेक्षण-कुद्वारप्रवेश-पादपा-
 दधावना(न-आ)सन्दीस्थभोज-
 न-नदीबाहुतरण-वृक्षविषमारो-
 हण-प्राणव्यायच्छन^३- नानि
 गौध ९, ३३.
अग्नि-मेध^०- धेन वाधुश्रौ ४, १९ :
 ३१.
अग्नि-मेधा-जननी^०- नी नाशि
 २, ८, ६.
अग्निं ब्रूमक^१- के अपं ४ : ३२.
अग्नि-या(ज्या>)ज्य- ज्ये तैप्रा
 ३, ९.
अग्नि-युक्त- क्तान् हिश्रौ १४, ६, ८.
अग्नि-युत^०- तः ऋअ २, १०, ११६.
अग्नि-यूप^०- पः ऋअ २, १०, ११६.
अग्नि-योग- गम् माश्रौ ६, २, ६,
 ९; वैश्रौ १९, ७ : २.
१अग्नि-योजन^१- नः बौश्रौ २०,
 २३ : ४४.
२अग्नि-योजन^२- नम् काश्रौ १८,
 ६, १५.
अग्नि-योनि- नयः ऋप्र १, ६, १.
१अग्नि-राजन्^१- जानः शाश्रौ ४,
 २१, ८; कागृ २४, १२.
अग्नि-राशि-वत् सु १८, २.
१अग्नि-रूप^०- पम् अप ६७, ४, ४;
 -पाणि आपश्रौ १७, ५, ११;

वैश्रौ १९, ५ : २४; हिश्रौ १२, २, ८.
२अग्नि-रूप^२- पाः या १०, ३०.
१अग्नि-रेतस्^१- तसौ आपश्रौ ५,
 ८, ८; बौश्रौ २, १५ : १२; माश्रौ
 १, ५, २, ४; वाश्रौ १, ४, १, १९;
 वैश्रौ १, ८ : ४; हिश्रौ ६, ५, १०.
अग्नि-वत् काश्रौ २२, १, ४५;
 आमिगृ ३, ८, २ : १८; बौपि १,
 १५ : २७; काध २८० : ५;
 भीस् ९, २, ९; ५५; १०, ५, ७८;
 ११, ३, २४; २५.
अग्नि-वत्-वति आपश्रौ ११,
 ५, ११; बौश्रौ ४, ३ : २९; ५,
 ५ : २९; १० : ३६; ६, २४ :
 १०; १०, ९ : ९; २२ : १६;
 १७, ३३ : ६; २१, १४ : ६; वैश्रौ
 ८, १० : ११; हिश्रौ ७, ४, ५६;
 -वते आश्रौ ३, १३, ३; आपश्रौ
 ९, १०, ११; बौश्रौ १३, ७ : १०;
 माश्रौ ९, १४, ३; वैश्रौ २०,
 १८ : ६; हिश्रौ १५, ३, २१;
 मागृ १, १८ : ११; -वान् या
 ६, १११.
अग्निवती- त्यै वाधुश्रौ ४, ४४ :
 २१.
अग्नि-वरुण- णौ काश्रौ ३६.
अग्नि-वरुण-सोम^१- मानाम्^१ ऋअ
 २, १०, १२४.
१अग्नि-वर्ण^१- णः वौध १, ४, ४;
 -र्णान् अप २४, २, २; -र्णानाम्
 अप २४, १, १.
२अग्नि-वर्ण, णां^१- णः अप ५३, ५,
 २; -र्णम् अप १, ६, ३; शंघ

२६६; विध ११, ५; -णाः अप
 ५८, १, ९; -र्णाम् वाध २०,
 २२.
अग्नि-वाक्य^०- क्यम् ऋअ २, १०,
 ५१.
अग्नि-वायु-विवस्वत्^१- स्वताम्
 वृदे ४, ३७.
अग्नि-वायु-सूर्य-हृदय-भू(त>)
 ता- -ताः शुअ २, २६५.
अग्नि-वायु-सूर्यो(श्र्यं)-देवता^१->
 व(त्य>) त्या^३- त्याः शुअ
 १, १६९; २, ४१४.
१अग्नि-वासस्^१- साः कौस्
 १३७, ३०; अअ १२, १; अपं ३:
 २०.
अग्नि-वाह^१- वाहौ आपश्रौ १८,
 १९, ३.
अग्नि-विकार^१- रः मीस् ११, २,
 २८.
अग्नि-विक्रय^१- यम् अअ ३, १५.
१अग्नि-विच्छेद^०- दः गौपि १, १,
 २९.
अग्नि-विद्^१- विदः आपश्रौ १६,
 १०; ६; वैश्रौ १८, ७.
अग्नि-विद्युत्-स्तनयित्नु-वर्षा-महा-
अ-प्रादुर्भावं^०- वात् शांगृ ६,
 १, १२.
अग्नि-पिनाश^१- शः बौश्रौ २९,
 १२ : ९-१६.
अग्नि-विपराणयन->नी(य>)-
 या- याम् माश्रौ १, ५, ४, २०.
अग्नि-विमोक्त^१- कम् माश्रौ ६, २,
 ६, २०.

a) द्वस. । b) तस. । c) द्वस.>तस. । d) अग्निं ब्रूमः इत्यतः मत्वर्थीयः वुन् प्र. उरसं. (पा ५, २, ६२) । e) व्यप. (ऋषि-विशेष-) । f) विप. । उम. उप. कर्तरि कृत् । g) विप. । बस. । h) वैप १, परि. च द्र. । i) द्वस. । j) °ग्नी° (तु. वैप १, ३७h) <>°ग्नि° (=यनि.) इति मौस्थि. वैप १, भू CVI, टि. २ इत्यस्य-गोचरः द्र. । k) षस. । l) द्वस.>कस. m) विप. । यत् प्र. । n) विप. । उस. । o) षस. ।
अग्निर्वि° इति पाटः ? यनि. शोधः ।

अग्नि-विमोचन- > णी(य >)

या^a- -याम् हिश्रौ १२,७,७.

अग्नि-वेला^b- -लायाम् आगृ ४,६,
५; गो १,७.

अग्नि-वेश^c- पाग ४, १, १०५;
-शा:^d अप ५७,१,५.

आग्निवेद्य^e- पा ४, १,
१०५; -इयः बौश्रौ १८, २६:
१३; आग्नि २,४,२:९;३:१९;
५: २७; ६: ४४; १०: ४०;
११: २६;५,६: ३३; ७,५:१६;
६: ३७; ८: २६; ११: १९;

३, १२,२: १३; अप १,३,१;
शुभ्र ४, १७७; -इयाः बौश्रौ
१८,२६: २० बौश्रौप्र १७: ४;
-इयाय बौगृ ३,९,६.

अ(१आ)ग्निवेद्य-काश्य-
प-गौतमा(म-आ)ङ्गिरस-भार्गव-
कौशिक-वाशिष्ठ^f- -छानि पिं ३,
६६.

आग्निवेद्य-वालमीकि^g-
-कयोः तैप्रा ९, ४.

आग्निवेद्यायन^h- -नस्य
तैप्रा १४,३२.

अग्निवेश-दशेरुकिⁱ- -का:^h पा
२,४,६८.

अग्नि-वैकृत^b- -तम् अप ७०^२,
१९,५.

अग्नि-व्रत^b- -तम् शंघ १०५; विध
५६,२७.

आग्निव्र(त >)ती-

आग्निव्रता(त-आ)श्वमे-
धि(क >)की^j- -की वागृ ७,४.

अग्नि-शब्द^k- -ब्दः शांश्रौ २, ५,

१०; -ब्दम् शांश्रौ २, ५, २०;
१४, ५१,८; -ब्दे काश्रौ ४,
१५,८.

अग्नि-शरण^k- -णे कौसू १२०,१.

अग्नि-शर्मन्^l- पाग ४, १, ९६;
९९;२,१३८.

अग्निशर्माय- पा ४, २, १३८.

आग्निशर्मायण- पा ४, १, ९९;
-णाः बौश्रौप्र ४१: ९.

आग्निशर्मि- पा ४, १, ९६.

अग्नि-शस्त्र-भय^l- -यम् अप ५८,
१,९.

अग्नि-शाला^k- -लाम् वैश्रौ १, २:
२; वैगृ ३,३: २; -लायाम् वैगृ
१, ८: १०; ४, ११: १२.

अग्नि-शिखा-मध्य^b- -ध्ये वैश्रौ २,
६: ९.

अग्नि-शुश्रूषक^m- -कः कप्र ३, ७,
१६.

अग्नि-शुश्रूपु^m- -पुः विध २८, ४६.

अग्नि-श्रीⁿ- -श्रियः आपश्रौ २२,
२७, ९; बौश्रौ १८, १२: ७;
हिश्रौ २३, ४, ३७.

अग्नि-श्रोणि^b- -णिम् काश्रौ १७,
२, १०.

अग्नि-(स >)षद्^o- -षदे भागृ २,
३१, ९; १०.

अग्नि-(स्तु >)ष्टुत्^c- पा ८, ३, ८२;
-ष्टुत् आश्रौ ११, २, १०; १२;
शांश्रौ १६, १५, ३; २९, १५;
काश्रौ २१, २, ४; २२, ४,
३१; २४, १, २९; आपश्रौ
२०, २५, ६; २२, ७, ३; २३,
२, ६; ८; बौश्रौ १६, ३१:

१६; १८, १२: १२; हिश्रौ १४,
६, १६; १७, ८, ३३; २३, ४,
३६; जुसू ३, १४: १; ४; निसू
९, ३: २०; वैताश्रौ ३८, ११;
गौघ २२, ९; -ष्टुत्: शांश्रौ १४,
४, ६; -ष्टुत् बौश्रौ १६, ३५:
४; निसू ९, ३: १९; १०: ३८;
-ष्टुत् आश्रौ ९, ७, २२; शांश्रौ
१४, ५१, १; ५७, २०; आपश्रौ
२२, ६, ५; १४; १०, २; ४; बौश्रौ
१८, १२: १; हिश्रौ १७, २, ५०;
५८^२; ५९; ४, १८; २०; वाध
२२, ७; बौघ २, १, ४; ३, १०,
९^१; गौ १ १९, ११; -ष्टुत्
बौश्रौ २३, १८: १६; २६, ३१:
१७; निसू ६, ३: २२; ७, १०:
६; शुभ्र ३, १५८; -ष्टुत्सु
काश्रौ १२, १, ३; द्राश्रौ १, ४, ३;
निसू ६, १३: १; ३८; लाश्रौ १,
४, १; ८, ७, १; वैताश्रौ ३९, ८.
अग्नि-ष्टुद्-इन्द्रस्तुत्-सूर्यस्तुद्-
वैश्वदेवस्तुत्^o- -स्तुताम् काश्रौ
२४, ७, १५.

अग्नि-(स्तो >)ष्टोम^c- पा ८, ३, ८२;
-मः आश्रौ ५, २०, ८^२; ६, १०,
२२; ११, १; ७, ४, १४; ८, ४,
२०; १२, २६; ९, २, १२; २२; ३,
२६; २७; ११, ५, ३; शांश्रौ ७, २१,
७; ९, १, १; १०, २, १; ११, ४,
४; १०, १; १३, १; १५, १; १३,
१४, ७; १६, ५; १४, २, ७; ८;
८, २; १२, ४; ४०, ५; ५७, १९;
१५, ४, ८; ११, ७; १२, ४; १६,
५; १६, २०, १३; २१, ७; २६,

a) विप. । b) षस. । c) वैप १, परि. च द्र. । d) बहु. < आग्निवेद्य- । e) व्यप. ।

f) द्रस. । g) बहु. < आग्निवेद्यदाशेरुकि- । षेर^o इति पाका. पाभे. । h) षस. । उप. स्वार्थे < वि-कृति- ।

i) विप. (तु. मागृ १, २३, ५; १४) । j) कस. । k) षस. । उप. =गृह- । l) द्रस. > पंस. ।

m) उस. उप. < √श्रु ।

५; २८, ४; २९, १७; १७, ७,
५; १८, २३, १७; काश्रौ ७, १,
५; १२, ३, १; १३, २, २; ७; ९;
१६; २१; ४, ८; २०, ४, २२; २२,
१, २; २४, ६, २६; आपश्रौ १०,
२, ३; १२, ६, ७; ८; १३, २५,
१०; १४, १९, ८; २२, ४; १४;
२४, १६; १८, ८, ३; २२, १३;
१८; १९, १२, १४; २०, २४,
५; २५, ६; २२, १, २; ४; ६;
१२; २, ५; ४, २८; ५, ४; ८, २;
९; १३; ९, २; १४, १९; २१; २३;
१५, ४; १८, १; १४; २०, ७;
१५; २१, १४; २२, ७; २३, १२;
१८; २४, २; ११; २४, १, ७;
४, ३; ७; काश्रौसं २८: १५;
१९; २१; २३; २५; बौश्रौ ७, ४:
२; ८, २२: १४; १५; १२, १:
४; १८: २८; २०: २५; १४,
४: २५; २९: २४; १५, १८:
२३; १६, ३: १७; ६: १९;
१४: ६; ७; १७; १५: १; २;
२४: ५; २५: १; २८: ३; ८;
२०; २९: ३; ४; ९; ३१: २;
४; ७; ९; १६; १७; १८; ३२:
१०; ३३: ७; १७, १७: ११;
५५: १३; ५८: १०; ५९: ३;
१८, १: ८; ३: १२; ४: १२;
११: १६; ३६: ११; १९, ३:
३६; २४, ४: ८; २६, २: २२;
३: १२; १६: १५; ३३: १;
माश्रौ ३, ७, ८; ६, २, ६, ७;
वाधूश्रौ ४, ९९: २; १००: ११;
१०१: १; २; ७; ८; वाश्रौ
३, २, ३, ५; ७; १८; ३, ४, १५;
४९; ४, २, १; वैश्रौ १२, १: ९;

२: ८; १५, ८: ३; १६, २८:
१५; २०, १: ३; २१, ५: ११;
९: ३; हिश्रौ ७, १, १; ९, ६,
३४; ११, १, २; १३, ७, ९;
३२; ३४; १४, २, ४२; ६, ३;
१७; १५, ५, २०; ४०; ६, १८;
१६, ३, ११; ४, ३, ५, १८; २८;
६, ३; ४; १७, १, १; ५; ८;
१५; २३; २, १४; ३२; ३,
१८; २६; ३१; ३२; ३४; ६,
७; १६; १८; २१; ७, ७; १६;
१९; २८; ३०; ८, १५; १६;
२४; २५; ३३; ३४; ३६;
१८, १, २०; ४, २०; २३, २,
२५; द्राश्रौ १३, ४, १७;
लाश्रौ ५, ४, २४; ८, १२, ११;
वैताश्रौ १६, ५; २४, १९; निस्
३, १: ६; १२; २: १८; ३: १२;
७, ८: ९; ८, ४: २५; १०: २५;
९, ७: ४; ८; १०, १३: २१;
वैश्रौ १, १: ९; गौध ८, १८;
शुश्रु १, २३०; मीस् ५, ३, ३७;
-मम् आश्रौ १०, ५, १०;
शाश्रौ १५, ५, १; आपश्रौ ६, ४,
१०; १३, १५, ६; २१, ६, १०;
९, १; १५, १०; १४; १६; २१;
१६, १६; १७; १७, १; काश्रौ
२२, ७, ७; ९; बौश्रौ १२, १८:
१; १४, २०: ८; १५, १७:
१९; १६, ६: ४; १४: १३;
२०: ८; ३५: २; १८, २१: ११;
२१, ७: १; माश्रौ ६, ९, ८;
वाधूश्रौ ३, १९: २४; ४, ११३:
७; वाश्रौ ३, २, १, ४२; ५, १;
वैश्रौ १२, १: १; २: ७; १६,
१८: १२; हिश्रौ १०, ५, १३;

१८, ४, ६३; द्राश्रौ ८, ४, १०;
लाश्रौ ४, ८, १०; निस् ३, १:
९; १६; ९, ९: ५१; अप्राय ३,
३; भाशि १२४; -मस्य आपश्रौ
१४, १, १; काठश्रौ ७२; बौश्रौ
२४, ४: ९; वाधूश्रौ ४, ८१: ८;
१०१: ५; १३; ११३: ५; वाश्रौ
३, २, ३, ३; हिश्रौ ९, ७, १; १०,
१, १; १७, ३, १६; वैताश्रौ १५,
६; निस् ३, २: ४; ९, ६: ३४;
-मा: आश्रौ ८, ७, १२; ११,
५, ७; शाश्रौ ११, ११, ५; १३,
२३, ६; १५, १, ७; १६, २९, ३;
काश्रौ १३, २, ८; २३, ५, २३;
२४, ३, २१; ४, ७; आपश्रौ २१,
१४, १४; २२, ५, १७; ७, १;
२४, ७; २३, ७, ३; ९, ६; बौश्रौ
१६, १६: ४; ५; २८: २; ७;
१९; ३६: ४; १७; २१; १७,
१६; १२; २६, १६: १५; १७:
९; २०: ७; ३०: १; वाश्रौ ३,
२, ३, ११; हिश्रौ १६, ५, २५;
१७, २, ४५; ८, ३५; १८, ३, १;
११; ४, ६७; लाश्रौ १०, १४, १;
वैताश्रौ ३१, १५; जुस् २, १५:
४; -मात् वाधूश्रौ ४, १००:
१३; -मान् आपश्रौ २१, १५,
१४; २०; बौश्रौ २६, १७: १०;
निस् ५, ७: २; वाधूश्रौ ४, १३:
४; -माय काठश्रौ ४४; बौश्रौ
१२, २०: २४; २६, २: २१;
-मे आश्रौ ५, ३, ३; ७, १, १७;
शाश्रौ ११, २, १; १४, ४१, ५;
काश्रौ ९, ३, १३; ८, २; आपश्रौ
११, १०, १३; १२, १५, ९; १८,
१४; १४, २, १०; १०, ४; १५, १२,

a) अग्निशिनरस्तोमः इति पाठः ? यनि. शोधः ? । b) पाठः ? ष्माः इति शोधः (तु. सपा. आपश्रौ २२, ५, १७) । c) पाठः ? ष्माः इति शोधः (तु. सपा. आपश्रौ २२, ७, १) । d) पाठः ? संस्करणान्तर-सापेक्षः द्र. ।

१०; २२, ६, २१; काठश्रौ १६६; काश्रौसं २९ : ११; बौश्रौ १४, ११ : २६; २२ : २३; २४, १० : १८; भाश्रौ ११, १२, ११; माश्रौ २, २, ३, २४; ३, १, १९; २, २६; ६, १५; ५, १, १७; २, १७; ३३; वाश्रौ १, १, १, ६४; वैश्रौ १३, १५ : ३; १५, १ : १; १७ : ४; १७, ६ : ८; २१, ४ : ८; हिश्रौ १०, ८, ४७; १५, ५, १३; १६, ८, १४; १७, २, ६५; २४, ५, ८; निस् ९, ८ : ३; -मेन आश्रौ १, ३, २२; ६, १०, २४; ९, ३, २; शाश्रौ १५, १६, ९; काश्रौ २४, ५, ३; ६, ४१; आपश्रौ २१, १३, ५; २२, १, १६; ६, २^०; ५; १४; ९, ८; ११; १९; १०, २; ४; १२, ११; बौश्रौ ६, १ : १; ११, १३ : ३७; १६, ९ : १६; २३ : १३; १८, २ : ७; १३ : ३; १६; ४१ : १८; ४७ : ४; १०; २५; २६; ५१ : २४; २५, ४ : १; २६, १८ : २; ११; भाश्रौ १०, २, १२; माश्रौ २, १, १, १; वाश्रौ ३, ३, १, २; ४, ५०; वैश्रौ १६, २८ : १६; १७, १८ : ९; हिश्रौ ९, ७, ३; १३, ३, ४; १६, ५, १२; १७, १, १८; २, १३; ५०; ५९; ३, १; ४, ४; ६; १४; १८; २०; ५, १९; ३०; वैताश्रौ ३४, २१; निस् ३, ६ : ११; ६, १ : २१; अत्र ९, ६, ४^१; शौच २, १६^१; -मेषु निस् ६, २ : २४; ९, ४ : ३०; -मैः बौश्रौ १७, १९ : ११; -मौ आश्रौ ७, ७,

१०; ८, ४, ७; शाश्रौ १४, ४२, १८; काश्रौ-१३, २, १; २१, १, ३; २४, २, १८; २१; आपश्रौ २२, ५, २; ६, ३; ८, ९; २३, ८, ३; बौश्रौ १६, ३१ : १९; २६, १६ : ७; १६; हिश्रौ १७, २, ३०; १८, ३, ३; लाश्रौ १०, ३, २; ६; १८, ५; लुस् २, १५ : १९; शौच २, १६^१.

आग्निष्टोमिक^b-कम् शाश्रौ १६, २०, १२; आपश्रौ १४, २, १; बौश्रौ २५, ९ : १३; १७ : १६; २६, ३२ : ४; ३३ : २१; -काः बौश्रौ १०, १२ : ९; ११, १ : १२; २४, ३५ : ६; २६, १ : ३; -कान् बौश्रौ १७, ५५ : २; -कानि बौश्रौ २६, २ : ११; -के शुभ्र ३, १५८.

आग्निष्टो(म>)मी^c-मीस् निसा ३, १ : २; १०, १३ : १९.

आग्निष्टोम्य^d-म्यम् लाश्रौ ८, १, १६; निस् ४, ५ : ६; -म्यात् निस् ७, ४ : १०.

आग्निष्टोम-क (ल्प >) ल्या^e-ल्पाः वैश्रौ १७, १ : १.

आग्निष्टोम-चमस-साः माश्रौ २, ५, २, १७; -सान् आपश्रौ १४, १, ६; काश्रौसं ३०:६; माश्रौ ६, २, ६, १७; हिश्रौ ९, ७, ८; -सानाम् हिश्रौ ९, ७, १०; -सेभ्यः माश्रौ ६, २, ६, १६; -सैः आपश्रौ १४, १, ८; हिश्रौ ९, ७, ११.

आग्निष्टोम-चमस-गण-णात् वैश्रौ १७, १ : ४.

अग्निष्टोम-पक्ष^f-क्षः काश्रौ २३, ५, २०; २८.

अग्निष्टोम-भक्ति^g-क्तिः निस् ६, २ : २५.

अग्निष्टोम-मुख^h-खः आपश्रौ २३, ८, ३; हिश्रौ १८, ३, ३; -खानि आपश्रौ २२, २३, ६; हिश्रौ १७, ८, २४.

अग्निष्टोम-याजिनⁱ-जी निस् २, १० : ६; ३, १ : २५.

अग्निष्टोम-वत् आपश्रौ १४, १ : ३; मीस् ८, ३, १३.

अग्निष्टोम-विष्णुति^j-तौ जैश्रौका १९५.

अग्निष्टोम-सं(स्था >)स्थ^k-स्थम् शाश्रौ १३, २१, ९; द्राश्रौ ८, १, ११; लाश्रौ ४, ५, ११; निस् ८, १२ : ६; -स्थे निस् ४, ११ : १८.

अग्निष्टोम-संधि-वा (< सा)-मन्^l-मोः द्राश्रौ ६, १, २१.

अग्निष्टोम-संमित-तः वाधूश्रौ ४, ६५^m : ४; ७४ : २०; -तम् वाधूश्रौ ४, २९ⁿ : ९; १०; ७४ : २१; आपध २, ७, ४; हिध २, २, ५.

अग्निष्टोम-सहस्र-स्रम् आश्रौ १२, ५, २१.

अग्निष्टोम-साम^o-मम् आपश्रौ १८, २०, २२; बौश्रौ १२, १८ : १९; हिश्रौ १३, ७, १०.

अग्निष्टोम-सामन्^p-म आश्रौ ८, ७, ११; १२, २६; १०, २, ७; शाश्रौ १०, १२, २; १४, ३३, ६; ६१, ७; १५, ३, ३; ६, ४; १६,

a) सपा. अग्निष्टोमेन <> उक्थेन इति पाभे. । b) विप. । तात्रभविकः ठञ् प्र. (पा ४, ३, ६८) । c) विप. (संस्था-) । तस्येदमीयः अण् प्र. । d) भावे व्यञ् प्र. (पा ५, १, १२४) । e) विप. । बस. । f) षस. । g) कस. । पू. द्वस. । h) वैप १ इ. । i) कस. ।

१४, १३; १८, २३, ४; आपश्रौ
 २२, ४, २; ६, १०^३; १२, १६;
 बौश्रौ १५, १८ : ७; १६, २५ :
 १४; १८, १५ : ११; २३ : ६;
 १०; १५; २७ : २-११; ३४ :
 १२; ३९ : ७; २६, १४ : १२;
 माश्रौ ३, ६, ११; ७, १; हिश्रौ
 १७, २, १; ५७; ५८^२; द्राश्रौ ६,
 ३, १; लाश्रौ २, १०, २२; ८, १२,
 १२; १४; १०, ९, ६; १०, १;
 जुसू १, ४ : ३३; ७ : २१; २५;
 २८; ३०; ८ : ८; १६; २८; ९ :
 ७; २, १ : १६; २३; ५ : २०;
 ७ : ७; १४; ९ : २०-२३; ३,
 ३ : ९; १४; ४ : १; ३; ८; ५ :
 ३; ६ : १; ७ : ३; ८ : १; ३;
 ११ : ३०; १६ : ८; १३; निस्
 ३, १० : ४२; ४, ८ : ३२; ९ :
 २४; ६, ३ : ९; ४ : ८; २२; ५ :
 ११; ७ : ४९; ११ : २३; १३ :
 ६; १९; ७, २ : १०; ४ : ३९;
 ५१; ५ : ४२; ८, ६ : ४९; १०,
 ७ : १; -मानि निस् ८, ६ :
 ३१; ९, ३ : ५; -अः आश्रौ ९,
 ९, ९; शाश्रौ १०, १३, २०; ११,
 १४, ३५; १५, १४; १४, ५७, ५;
 वैताश्रौ २५, १; जुसू १, २ : १४;
 २३; ७ : ३०; ११ : २५; निस्
 ४, ११ : ९; ६, १३ : ३८; -जा
 द्राश्रौ ९, ३, २३; लाश्रौ ३, ७, ८;
 छुसू १, १० : १७; ३, ३ : ४;
 -मि लाश्रौ ६, २, ८; निस् ६,
 १३ : ३६; -जे वैताश्रौ २३, ६.
 अग्निष्टोमसाम-संधिसामन्^३-
 -ज्ञोः लाश्रौ २, ९, १९.
 अग्निष्टोमसामा (म-आख्या-

>) ख्य^३- -ख्यम् जैश्रौका
 १९५.
 अग्निष्टोम-स्तोत्र- -त्रम् माश्रौ
 २, ५, २, १९; हिश्रौ ९, ४, २७;
 -त्रान् हिश्रौ १०, ५, ११.
 अग्निष्टोमस्तोत्रीय- -यौ
 निस् ६, ११ : २१.
 अग्निष्टोम-स्तोम- -मैः शाश्रौ
 १५, ६, ६; ७.
 अग्निष्टोमा (म-अ)तिरात्र^३-
 -त्राणाम् काध २८२ : २; -त्रौ
 काश्रौ १५, ९, १८.
 अग्निष्टोमा(म-आ)दि^३- -दयः
 आश्रौ १०, १, १२; -दिभिः
 शंघ १३८.
 अग्निष्टोमादि-यज्ञ^३-
 -ज्ञानाम् वैग ३, २१ : ५.
 १ अग्निष्टोमा(म-अ)यन^३- -नम्
 बौश्रौ २६, १२ : ६.
 २ अग्निष्टोमा(म-अ)यन^३- -नेषु
 आश्रौ ७, १, १८.
 अग्निष्टोमीय- > ०यस्तोत्र^३-
 -त्रे वैश्रौ १६, १९ : १.
 अग्नि-ष्ट, षा^३- पा ८, ३, ९७;
 -ष्टः शाश्रौ १६, ३, ४; १२,
 ५; काश्रौ ८, ८, २०; आपश्रौ
 २०, १३, ११; २१, १४, १३;
 बौश्रौ १७, ११ : १०; १३ : १५;
 माश्रौ ५, २, १२, १४^२; वाश्रौ
 ३, ४, १, ५४; वाधूश्रौ ३, ७९,
 २४; हिश्रौ १४, ३, १३; १९;
 कौश्र १, ९, ९; बौपि १, १ : १;
 -ष्टम् आश्रौ २, ६, ५; आपश्रौ
 १४, ५, १२; १७, १७, ७; २२,
 ७; २०, ९, ६; १९, ६; बौश्रौ
 १, ४ : २७; १५, १४ : ३; १७ :

८; १८ : १०; २२ : १७; ३६ :
 ६; १७, १२ : ३; २६, १० : २१;
 २३; २४ : ५; ६; माश्रौ १, १,
 २, ३; ५, २, १२, ४; वाश्रौ १,
 २, ४, १९; ३, २, ६, ७; २८;
 वाधूश्रौ ३, ७९ : २१; ८१ : ३;
 ८६ : १२; वैश्रौ ४, ४ : १; हिश्रौ
 ९, ८, ७; २३; २४; १२, ५, ३७;
 ६, २८; १४, २, ३८; अप २३,
 ५, २; -ष्टस्य शाश्रौ २, १६, २;
 आपश्रौ ६, २८, ७; बौश्रौ १७,
 ११ : ५; २६, २३ : ९; १०;
 माश्रौ ६, ६, ६; वाश्रौ ३, २, ६,
 १९; २९; वैश्रौ २, ११ : ४; हिश्रौ
 ३, ८, ६; -ष्टा काश्रौ ६, ३, ९;
 आपश्रौ ९, २०, ७; -ष्टाः वैश्रौ
 २०, ३९ : ९; -ष्टात् आश्रौ २,
 ६, २^३; आपश्रौ १४, ५, १०^३;
 ६, ८; २०, १३, १३; माश्रौ १,
 २, १, २३; ७, ६, ६; ५, २, १२,
 ९; १६; वाश्रौ १, २, ३, ५; ३,
 २, ६, ९; ३०; हिश्रौ ९, ८, ११;
 २६; २७; वैग ३, १६ : ९; -ष्टाम्
 काश्रौ ६, ३, १५; आपश्रौ ७,
 १०, ३; ९; ११, ९; बौश्रौ ४, ४ :
 २४, ३०; ४०; २०, २६ : ४६;
 २७ : १; २५, ३४ : १; २६, २३ :
 २; भाश्रौ ७, ८, १४; माश्रौ १,
 ८, २, १९; वाश्रौ १, ६, ३, १३;
 ३, २, ६, ३०; वैश्रौ १०, ८ :
 १३; ९ : ३; १२; हिश्रौ ४,
 २, ४८; ५५; ५६^३; ७१;
 कौश्र १, १२, ८; शाश्र १, २०, ३;
 -ष्टायाः माश्रौ १, ८, २, २८;
 -ष्टे शाश्रौ ६, ९, ६; काश्रौ ८,
 ८, १६; २०, ६, २; ८, १५; २१,

a) द्रस. । b) विप. । बस. । c) कस. । d) वैप १, परि. च द्र. । e) पाठः (BC.

अग्निष्टात् इति च)? अग्निः, तान् इति द्वि-पदः सोधः (तु. सपा. मा २, ३०) ।

१,८; आपश्रौ १,२,१०; १४,
५,१२; ६,१३; बौश्रौ १,१:
१६; १४,१९: १५; १५,२३:
४; ८-११; २६: ५; ९; १६,
२९: १०; १७,११: १४; भाश्रौ
१,३,२; माश्रौ १,१,१,२२; ५,२,
१२,७; १७; वाश्रौ १,२,१,११;
३, २,६,३२; ४,३,१२; वाधूश्रौ
३, ८६: ६; वैश्रौ ३, ३: ८;
हिश्रौ १,२,२१; ९,८, ७; ३१;
१६,२,३; आग्निष्ट ३,५, १: २;
-ञ्जन आपश्रौ १४, ५, १५;
वाधूश्रौ ३,८१: १.
अग्निष्ट-प्रथम^१ -मान् आपश्रौ
१४,५,६; हिश्रौ ९,८,४.
अग्निष्ट-वर्जम् वाश्रौ ३, २, ६,
२०.
अग्निष्टा-देश^२ -शम् काश्रौ ६,
३,५.
अग्निष्टा(ष्ट-अ)न्त- -न्तम् वाश्रौ
३,२,६,१६.
अग्निष्टा(<स्वा)त्त^३ -त्तम् अप
२३, १, ३; -त्ता: आश्रौ २,
१९, २१; आपश्रौ ८, १५,
१७; वैश्रौ ९,८: ११; -०त्ता:
आश्रौ २, १९, २२; शाश्रौ ३,
१६,७; आपश्रौ ८, १५, १७;
वैश्रौ ९,८: ११; वैताश्रौ ३०,
१४; कौस् ८७,२७; अत्र १८,
३; -त्तान् आपश्रौ ८,१५, १९;
बौश्रौ ५,१४: १५; भाश्रौ ८,
१८, २२; वैश्रौ ९,८: १२;
हिश्रौ ५,४,६६; अप ४३,५,
३८; शंघ ११६: २४; शुप्रा ३,

१५०; याशि २, ८७; -त्तानाम् शाश्रौ ३,१६,७; काश्रौ
१५, १०, १६; १९, ३, २४;
-त्तैभ्यः शाश्रौ ३, १६, २;
काश्रौ ५,८,१२; ९,७; आपश्रौ
८,१३,१६; १५, १७; २०,१४,
१३; कागृत् ४२: १९; बौश्रौ
५,१४: १२; भाश्रौ ८,१५,
१४; माश्रौ १,७, ६, ६; वाश्रौ
१,७,४,१२; वैश्रौ ९, ८: १०;
हिश्रौ ५,४,१५; १९; ६७; १४,
३,१८.
अग्नि-संयुक्त- -क्तानि हिश्रौ ५, २,
७.
अग्नि-संयोग^४ -गः मीस् ११, २,
२८; ३,१६.
अग्नि-संयोज(न>)नी^५ -नी बौश्रौ
२३,९: ११.
अग्नि-संसर्ग- -र्गे कौस् ९३,१६.
अग्नि-संस्कार- -रः वागृ ५,५; विध
२२,२८; -राः बौश्रौ २३,१९:
१६.
अग्नि-संस्कारा(र-अ)र्थ- -र्थम्
बौश्रौ २४,१७: ५.
अग्नि-संस्पृ(ष्ट>)ष्टा- -ष्टा अप
२२,३,२.
अग्नि-सकाश- -शम् मागृ १,११,
९; -शे माश्रौ १, ६,३,१०; १२.
अग्नि-सक्तिया^६ -या कप्र ३, ५,
१६.
अग्नि-सन्ता^७ -न्ताम् शंघ ११६:
१८.
अग्नि-समाधान^८ -नम् कागृ ४५,
२; गोगृ १,१,१४.

अग्नि-समारोपण^९ -णम् बौश्रौ
२९,५: २०.
अग्नि-समीप- -पम् काश्रौ २०, २,
३; -पे बौपि २, १०, २.
अग्नि-संमार्जन^{१०} -ने हिश्रौ ५,२,८.
अग्नि-सर्व^{११} -वेन बौश्रौ १०,
५८: ५.
अग्नि-सह^{१२} -हम् बौश्रौ २७,८: ४;
अग्नि-सालोक्य^{१३} -क्यम् विध ९२,
१३.
अग्नि-सूर्या(र्य-अ)निल^{१४} -लाः बृदे
६, ५०; -लानाम् ऋत्र २, ८,
१८.
१अग्नि-स्तम्भ^{१५} -म्भः मु ४,६.
२अग्नि-स्तम्भ^{१६} -म्भाः^१ बौश्रौप्र
१७: १२.
अग्नि-स्थान^{१७} -ने जैगृ १,२३: २.
१अग्नि-स्पृश^{१८} -शः बौश्रौ २६,
३१: १८.
२अग्नि-स्प(शं>)शा^{१९} -शाम्
आपथ १, २५, ३; हिध १,६
७८.
अग्नि-हवन-बलिहरण^{२०} -णयोः
गौध २,८.
अग्नि-हविस^{२१} -विषोः मीस् ८,
४,८.
अग्नि-हुत्^{२२} -त्तः माश्रौ २, ४, १,
४४; ४, २९; ५, १, ३३; ३, ११;
१५; २६; २९; -तस्य वैताश्रौ
१९, १६.
अग्नि-होतृ^{२३} -ता चात्र ४१:
१६; -तृभ्यः आपश्रौ १४, ३३,
५; बौश्रौ २२, ५: १८; हिश्रौ
१५, ८, ३१.

a) विप. । बस. । b) षस. । c) वैप १, परि. च द्र. । d) विप. । उस. उप. सं √युज् > योजि
+ युच् प्र. । e) पाठः ? °न्तसा- (विप. [स्वाहा = स्वधा-]) इति शोधः । f) वैप १ द्र. । g) विप. ([साऽभि-] अग्न्या-
धेय-) । 'अग्निना सहने [युज्यते]' इत्यर्थे उस. । उप. < √सह [°संयोगे] कर्तरि । h) द्वस. । i) व्यप.
(ऋषि-विशेष-) । व्यु. ? । j) बहु. < अग्निस्तम्भ- । k) सपा. आपश्रौ १४, ४, ११ विशिष्टः पाभे. ।

१ अग्नि-होत्र^a - अः वैध १, ७, ५;
 - त्रौ^b शांश्री १४, ३, १५.
 २ अग्नि-होत्र^c - अस् आश्री २, १,
 ३; २, १६; ९, २; ३, १०, १७; ३१;
 ११, १९; १२, ४; १०; १२, ४, ५;
 शांश्री २, ६, १; ३, १२, १५; १६;
 ४, ५, ११; ८, १३, ६; १०, १४,
 २; काश्री २, १, १७; ४, २, ४९;
 १०, ४; १९, १, १५; २४, ४, २४;
 २९; ६, ३४; २५, ११, २२;
 आपश्री १, १, २; ११, १; ५, १७,
 ६; २२, १०; १३; २३, २; ३; २७,
 १४; ६, १, १; ५, १; ७; ६, १; १०,
 ८; १४, ४; १५, १४; ७, ७, ४; ८,
 ८, २३; ९, २, ४; ६; ६, ३; १०;
 ७, १; ३; ४; ९; ८, २^d; ५; ९, ६;
 १०, ६; ११, ५; १०, १३, १०;
 १४, ४; १३, २५, ९; १५, ११, ९;
 १२, ८; १६, ३२, ४; १८, १०, १;
 २२, ९; २०, १, १६; २३, १०,
 ९; २४, १, ६; काठश्री १६;
 काश्रीसं २७: ६; ३१: ६; ३५:
 ५; १०; बौश्री २, ७: २८; १८:
 ३१; ३, २: ३; ४: २०; १७: १;
 २; ५, १०: १९; १४, ८: २; ३;
 १९: ८; २३: ११; १२; १८;
 १९; २४: ३; ८; १६; २३; १५,
 ३: २; १८, २०: १०; १९, २:
 ९; २०, १: १०; १८: ३^e; २४:
 १; २३, १: २३; २४; २४, ४:
 ६; ११; १४; १६; १७: ५; २३:
 ७; २९: १; २^f; ३०: १; १६;
 ३१: ५; २५, ७: ९; १६: २;
 २६, १८: १९, १९: १०; २९, १;
 ३३: १४; २८, ५: १; ३; ९; १२;

१२: ६; ८; २०; २६; ३१; २९, ७:
 ५; ९; १३; ११०: १२; माश्री १,
 ११, ७; ९; ४, १, ३; ५, १०, १२;
 १३, ४; ५; १२; १९, १३; ६, ७,
 १; ८, १८; ९, ६; ७; १०, ५; ११, ७;
 १४, १०; १८; १८, ११; ९, ३, २;
 ३; ६; ८; ९, ६; ११^g; १५^h; १०, ४;
 ९; १०; ११, ४; १२, १; १४, १;
 १८; ११, ११, १०; १२, ९; माश्री
 १, १, ३, ८; ६, १, ८; २९; ३७ⁱ;
 ५४; ३, २, २; ८-१२; ३, ६^j; ५,
 १४^k; वाधूश्री २, ३: ४; १०: १;
 ३, १०: २; १९: २७; २८;
 २९; २१: १; ७^l; २२: १०;
 १४; १५; २४: १४; १५; २५:
 १; ३; ५; १३; २६: १; २७: ६;
 ७; २९: ७^m; ३४: १; ४; ६; ७;
 १०; १२; ३५: १; २; ४; ३७:
 ७-९; ३९: ३; ४०: २-५; ७;
 ८; ७०: ५; ४, २५: ४; ३२: ३;
 ३८: ३, ३९: ३ⁿ; ५^o; ७-१७;
 ८७: १; ९४: ४; ६; ९; ९८: ३;
 ७; वाश्री १, १, १, ८६; २, २,
 ३३; ४, ४, ३७; ५, २, ७; ९;
 ३४; ३, ७; १०; ६, २, ५;
 ३, ३, ४, ३९; ४०; वैश्री १, १४:
 ७; १७: १-४; १९: २१; २,
 १: १^p; ९: ६; ७; ८^q; १३; ३,
 १: ९; २: १९; ४, १: १; ८,
 २: १३; १३, १४: १; १८,
 २१: ८; २०, १: ३; ५: २; ६;
 ११: ७; १२: ५; ६^r; १३: १;
 २; ४; ९; १४: १; ७; १६:
 १२; १८: २; १९: १; २१:
 १; २२: २; ४; हिश्री १, १, ५;

२, १; ४, २०; ३, १, १२; १४;
 १५; ४, ५३; ५, १८^s; ७, १;
 २८; ११६; ११७^t; ८, ८६; ६,
 १, ३२; ५, ३३; १३, ७, २७; १४,
 १, १०; १५, १, ४२; ४५^u; २,
 १४; १६; २०^v; २२; २६; २७^w;
 ३०; ३२; ३४; ३, ५; १८; २५;
 ३१^x; १८, ४, ४; २४, ५, ३;
 द्वाश्री १३, ४, १६; लाश्री ५, ४,
 २३; १०, ११, ३; १२, १०; १८,
 १४; वैताश्री १, १६; ७, १; २;
 १६; ८, ३; १२, १; ४३, ५; ८;
 निस् २, ५: ३; २०; ३१; कौगृ
 ३, १०, ३५^y; ५, ६, ३; शांगृ २,
 १६, ४; ५; १७, १; आमिगृ १,
 २, १: १२; २, ४, ४: २०; ३,
 ५, १: ५; ११; ७, ३: १; ५; ७;
 ९, ३: १७; कागृउ ४०: १४;
 ४१: १७; बौगृ ३, १: २३;
 बौपि १, १: ४; १०; वैगृ १, १:
 ९; २, ७: १३; १८: १४; हिपि
 २१: ५; ६; २२: ११; कप्र ३,
 १, ८; कौस् ७२, ४३; ८०,
 २५; अप्राय १, २^z; ३^{aa}; ५; २,
 १; ८^{ab}; ३, ६^{ac}; ४, ३; ४^{ad}; ५,
 १^{ae}; २^{af}; ४; अप ४१, ३, १२;
 ४५, १, १; ५; २, १; वाध ६, २;
 शंघ ११; १३८; २८४; आपघ
 १, १४, १; बौध २, २, ७६; १०,
 २२; ३, ३, ५-७; ७, १५; विध
 ५९, २; ६८, ६; वैध १, ५, ५; ७,
 ३; २, ३, ४; ६, २; हिध १, ४,
 ३५; गौध ८, १७; शुअ १, १७२;
 भाशि १०६; मीस् ५, १, ३०;
 -त्रयो: काश्री २२, ८, २; बौश्री

a) विप. पुं., नाप. च । 'अमौ होत्रं हवनं यस्य' इति कृत्वा बस. हवनशील-पर्यायश्च, अग्निहोत्रनिष्ठ-
 सोमयाग-पर्यायश्च । b) उत्तरेण समस्तमिति C. । c) नाप. । 'अमौ ह्ययते' इति कृत्वा उस्. ।
 d) पाठे. पृ २६ b टि. द्र. ।

२१, २६ : १८; -अस्य आश्रौ
 १२, ४, १४; काश्रौ २५, ७, १;
 आपश्रौ ५, १७, ७; ६, १४, ३; ९,
 ७, ११; १०, १६, ११; १७, ७;
 बौश्रौ ३, ३ : १४; २७, ५ : १२;
 २८, १२ : ३; २९, ७ : १; भाश्रौ
 ५, १०, १२; ९, ९, १०; १४; १०,
 १०, २; ९; माश्रौ २, १, ३, १;
 ३, ३, ५; वाधूश्रौ २, १३ : ७; ३,
 १० : २; ३३ : १; २^३; ३; ३४ :
 २; ५; ४, ९४ : ५; वैश्रौ १, १४ :
 ८; १७ : ५; २, १ : २; ९ : १२;
 १२, १३ : ९; हिश्रौ ६, ५, ३८;
 ६, १; काण्ड ४१ : ९; हिगृ २,
 १६, २; आपध २, ७, १४; हिध
 २, २, ३३; मीसू १२, १, १३;
 -त्राणाम् बौश्रौ २९, ८ : १;
 भाश्रौ ९, ८, २; -त्राणि बौश्रौ
 २४, ३१ : १०; २६, १२ : ८;
 १०; २५ : १०; २७ : २३; -त्रात्
 आपश्रौ ८, ११, १८; १८, ९, १५;
 बौश्रौ २९, ७ : २; भाश्रौ ५,
 १९, १२; वाधूश्रौ २, १० : २;
 वाध ३०, ७; -त्राय आश्रौ ३,
 १४, १४; आपश्रौ ५, २३, १;
 १५, ३, ६; बौश्रौ ३, २७ : २६;
 भाश्रौ ४, ३, १; ५, १३, ११; ११,
 २, २७; माश्रौ ३, २, १; वाधूश्रौ
 ४, १०३^२ : ७; वाश्रौ १, ५, २,
 १; वैश्रौ १, १७ : ५; १३, ४ :
 १; हिश्रौ ६, ५, ३८; २४, १,
 १६; वैगृ ३, ७ : ६; -त्रे आश्रौ
 ३, १०, १०; काश्रौ ४, १३, १;
 ६, १०, २८; २०, १, १७; २५,
 १०, २०; आपश्रौ १, ११, ३; ९,
 ६, ११; ९, ६; ७; काठश्रौ २१;

बौश्रौ १, ३ : ६; ४ : १; २, २१ :
 २; ३, ८ : १; १२ : २; १३; ५,
 १ : ११; ५ : १४; १० : ८; १८ :
 ६; ८, २२ : १४; १३, ७ : १४;
 १४, २३ : २६; १५, ९ : ९; १०;
 १८, ३७ : ५; १९, २ : १०; ५ :
 ३७^३; २०, १८ : १; २३, १ :
 ३९; २७, ११ : ५; २८, १ : ५;
 २ : ४; १२ : २०; २३; २९,
 १२ : ११; भाश्रौ ९, ३, ५; ९,
 १; १२, १; ५; ११; १३-१४,
 ४; माश्रौ ३, २, १४; ३, १^३;
 २; ६; ४, ९; ५, १, ६, ६; वाधूश्रौ
 ३, १९ : १५; १७; वाश्रौ १, २,
 २, ७; ४, १; ५, ३, १६; ४, १;
 वैश्रौ १, १८ : ६; ८, ३ : १५;
 ४ : १; १० : १; ९, १ : ८; ३ :
 १०; २०, ४ : ३; ५ : ६; १० :
 २; ११ : ८; १६ : ५; १२; १९ :
 १; हिश्रौ १, १, ५८; ३, ६; ५, ३,
 ३; ६, ६, २५; १३, ३, ३३; १५,
 २, १७; ३, ५; ६; २३; २५; २३,
 २, ७; जैश्रौ २२ : १५; कौगृ २,
 ७, २१; शांगृ १, ३, ९; २, १२,
 ६; आमिगृ ३, ५, १ : ६; ७; ७,
 ३ : ३; काण्ड ४२ : २३; बौपि
 १, १ : ५; भागृ ३, १८ : ३;
 अप्राय १, ३; २, ९; ५, २; बौध
 १, ६, ३०; २, १०, २०; हिध २,
 २, ३४; मीसू ११, १, ५०; -त्रेण
 शांश्रौ १३, २४, २; आपश्रौ ९,
 ७, १; १०; ९, ६; बौश्रौ १४,
 २४ : ६; १८; २०, १ : ९; भाश्रौ
 ९, ९, ५; १०, ८; १२, १; माश्रौ
 ३, २, १४; ३, १; वाधूश्रौ २, १० :
 ३; ३, २२ : ८; १०; ४, ३८ :

३; ४; ६; वैश्रौ २०, १६ : १३;
 हिश्रौ १३, ७, २८; १५, २, २०;
 २७; ३, ५; निस् २, ५ : २९;
 आगृ १, ९, ४; शांगृ १, १, १२;
 वैगृ ५, २ : ११; हिपि २३ : ५;
 कप्र ३, १, ६; ११; अप्राय १, ३;
 ५, १; विध ६७, ४४^२.

अग्निहोत्री^२ - त्रिवै

बौश्रौ ३, ८ : २३; -त्री आश्रौ
 ३, ११, १; ७; शांश्रौ ३, २०, १;
 काश्रौ २५, १, १३^३; आपश्रौ ६,
 ३, ८; १९, ३^३; ९, ५, १^३; बौश्रौ
 १४, २३; ३; ७; ९; भाश्रौ ९, ७, १;
 वाधूश्रौ ३, १९ : २६; २०; १^३; २;
 ३; वैश्रौ २०, ९; ६; हिश्रौ १५, २,
 २; अप्राय २, ४^३; -त्रीम् आश्रौ
 २, ९, ४; शांश्रौ २, ८, १; ३, १२,
 १६; काश्रौ ४, १३, १; आपश्रौ
 ६, ३०, १४; बौश्रौ २, १८ : २९;
 ३, ४; १६; २८, ५ : २; भाश्रौ ६,
 १८, १२; हिश्रौ ३, ८, ८६; वैश्रौ
 २, २ : ३; ७ : १२; ८ : ७; २०,
 ९ : १४; -त्र्या शांश्रौ २, ८, ६;
 वैश्रौ २, ७ : ११; -त्र्याः भाश्रौ
 ६, ८, १५; ८, १३, २; वाश्रौ १,
 ७, ३, २०; वैश्रौ ९, ३ : ५; हिश्रु
 ५, ३, ३४; -त्र्याम् हिश्रौ ६, ६,
 ५; -त्र्यै आपश्रौ ८, ११, १७.

आग्निहोत्रिक^३ - कः बौगृ

१, ४, ४२; २, ६, २४; १०, ९;
 -कम् हिश्रौ १, २, १; बौगृ १,
 ४, ४४; बौपि ३, ३, १२.

अग्निहोत्र-काल- लः आपश्रौ

९, ७, ३; -लात् हिश्रौ १५, ३,
 १३; -ले आपश्रौ ७, ७, ४;
 -लेषु बौश्रौ २९, १० : ८.

a) नाप. स्त्री. ([अग्निहोत्रार्थ-नियतदोहना-] गो-) । नैप्र. < अग्निहोत्र-मयी- इति तु स्यात् ।

b) विप. (अग्नि- होम- प्रष्ट.) । तस्येदमीयमित्यर्थे ङ्क प्र. (पा ४, ३, ६८) ।

अग्निहोत्र-चेष्टा^a- -ष्टायाम्
 बौश्री २९, ५ : २०.
 अग्निहोत्र-दूर्वापूर्णमास^b-
 -साभ्याम् आमिष्ट ३, ७, ४ : ३०;
 बौपि २, ४, १९.
 अग्निहोत्र-देवता^c- -ताभ्यः आगृ
 १, २, २; कागृ ५३, १.
 अग्निहोत्र-द्रव्य^d- -व्याणि बौध
 २, १०, २४.
 अग्निहोत्र-धर्म^e- -भेण माश्री ४,
 ३, ३४; ४७.
 अग्निहोत्र-धेन्वा(नु-आ)दि^c-
 -दि अप ४५, २, २१.
 अग्निहोत्र-निष्ठ^c- -ष्टाः बौपि ३,
 ४, १४.
 अग्निहोत्र-पात्र^a- -त्राणि शाश्री
 ४, १४, ३४; बौश्री २, १८ : २६;
 ३, ४ : १४; माश्री ६, ८, १४;
 हिश्री ३, ७, १५; कौगृ ५, ३, २३.
 अग्निहोत्र-पूर्व^c- -र्वम् बौश्री २६,
 २५ : १.
 अग्निहोत्र-प्रत्याम्नाय^a- -यः
 आपश्री ९, १०, ६; हिश्री १५,
 ३, १८.
 अग्निहोत्र-मन्त्र^a- -न्त्राः चाअ
 ६ : १; -न्त्रान् बौध २, १०,
 ६१.
 अग्निहोत्र-मास^a- -से द्राश्री १,
 ४, ३१^२; लाश्री १, ४, २७; १०,
 ११, १४.
 अग्निहोत्र-यजुस्^a- -जुषा बौश्री
 २९, ५ : २५.
 अग्निहोत्र-लोप^a- -पे वैश्री २०,
 १५ : ९.
 अग्निहोत्र-वत् काश्री २५, ७, ४;

आपश्री १०, १७, ८; काश्रीसं
 ३५ : ४; वैश्री- २०, ३४ : १३;
 वागृ १७, २.
 अग्निहोत्र-वर्जम् आपश्री २४, ३,
 ८.
 अग्निहोत्र-विधि^a- -धिना वैश्री
 १२, १२ : १८; -धिम् बौश्री २,
 १८ : ३२; ६, ६ : १२; ९, ११ :
 २५.
 अग्निहोत्र-विवेक^a- -कः कागृउ
 ४२ : २४.
 अग्निहोत्र-वेला^a- -लायाम्
 बौश्री २९, ८ : ४.
 अग्निहोत्र-शेष^a- -पात् माश्री ६,
 १४, ५.
 अग्निहोत्र-अप(ण>)गी^d- -गीः
 अप ४५, २, १७.
 अग्निहोत्र-श्रामणकाग्निहोम^b-
 -मौ वैध २, ४, ५.
 अग्निहोत्र-स्थाली^a- -ली आपश्री
 ६, ३, ७; भाश्री ९, ५, २२;
 वैश्री ११, ९ : १४; -लीम्
 आपश्री ६, १४, ५; ९, ४, १;
 भाश्री ६, ८, १४; वैश्री २, २ :
 १; २०, ९ : ५; हिश्री ३, ७,
 १५; १५, १, ७५; आमिष्ट ३, ४,
 २ : १२; ५, ७ : ११; बौपि १,
 ६, ६; ३, ३, १२; वैगृ ५, ४ :
 ३४; हिपि ६, ६; -ल्या शाश्री
 २, ८, ८^०; आपश्री ६, ३, १५;
 १४, ९; वैश्री २, २ : ५^१; -ल्याम्
 शाश्री २, १०, ५; आपश्री ६,
 १४, २; वैश्री २, ९ : ११.
 अग्निहोत्र-हव- > अग्निहोत्र-
 हविष्ठ^a- -ष्टाः आमिष्ट ३, ४,

४ : १२.
 अग्निहोत्र-हव(न>ण>)णी^b-
 -णी आपश्री ६, ३, ६; काठश्री ७;
 भाश्री १, १६, ५; वाश्री १, ५,
 २, १०; अप २३, २, ५; कागृउ
 ४० : १९^१; ४६ : ३; तैप्रा ७,
 ११; -णीम् शाश्री ४, १४, २१;
 काश्री २५, ७, २५; आपश्री १,
 ११, ५; १७, १; ६, ७, १; १२, २;
 ७, ८, ३; ११, २, १६; बौश्री १,
 ४ : ७; २५; ३, ५ : ८; भाश्री
 १, १६, २; १८, १०; ६, ८, १४;
 १०, ११; १३, ९; १३; माश्री १,
 ६, १, १३; ५१; वाश्री १, २, ४,
 २; १३; वैश्री २, २ : १; ३ :
 ७; ८; ६ : १; ३, ६ : २; ४, १ :
 ८; ३ : ९; १४, १ : ४; हिश्री
 १, ३, ८; ४, २७; ५, ७; ३, ७,
 १५; ३९; ४१; ४, २, २७; लाश्री
 ८, ८, १२; निस् २, ६ : १९;
 आगृ ४, ३, ४; कौगृ ५, ३, ११;
 आमिष्ट ३, ४, २ : ६; ५, ७ : २;
 बौपि १, ५, १६; ३, ३, १२; वैगृ
 ५, ४ : २६; हिपि ६ : १; १० :
 ५; १०; गौपि २, ७, १८; कौस्
 ८१, ६; वैध २, ६, ३; -ण्या
 आपश्री १, १७, १०; बौश्री १,
 ५ : ६; १५; ५, ११ : ७; भाश्री
 ६, १३, १५; वैगृ ५, ४ : २१;
 हिपि १० : ९; -ण्याः वाश्री १,
 २, ४, २८; -ण्याम् काश्री १०,
 १, २०; आपश्री १, ११, ९; १९,
 १; भाश्री १, ११, १२; १९, १०;
 २०, ९; माश्री १, २, १, ३१; ३,
 ३, १७; ६, १, ५१; वाश्री १, २

a) षस. । b) द्रस. । c) विप. । बस. । d) नाप. (स्थाली-) । कास. । e) °ल्याम् इति
 C. शोषः (तु. शाश्री २, ८, १६) । f) °ल्याम् इति केचित् मूको. । g) उप. कर्तरि अच् प्र. तत आति-
 शायनिकः इच्छन् च । h) वैप १, परि. च द्र. । i) °नी इति पाठः ? यनि. शोषः ।

४, २८; ३८; वैश्रौ २, ३ : १३;
 ३, ६ : ८; हिश्रौ १, ३, १४; ६,
 १११; आग्निगृ ३, ४, २ : २; बौपि
 ३, ३, ११; वैगृ ५, ४ : १७.
 अग्निहोत्र-हविस्^a - विषाम्
 आपश्रौ १०, १६, १४; हिश्रौ
 १०, २, ५२; बौगृ २, ६, २२;
 -वीषि शाश्रौ २, ७, ९.
 अग्निहोत्र-हुत्^b - हुतः वाधूश्रौ
 ३, ३७, ९; ११.
 अग्निहोत्र-होम- -मः काश्रौ ४,
 २, १७; ६, १२; ५, ६, २९; -मेन
 कौगृ १, ६, ७; शागृ १, १०, ७.
 अग्निहोत्रहोम-वत् काश्रौसं
 ३५ : २.
 अग्निहोत्रा(त्र-अ)तिपत्ति^c - -त्तौ
 काश्रौ २५, १०, २५.
 अग्निहोत्रा(त्र-आ)दि- -दीन्
 आश्रौ १२, ४, ११.
 अग्निहोत्रादि-कर्मन्- >
 कर्मवत्^d कप्र १, ३, ३.
 अग्निहोत्रा(त्र-अ)न्त^e - -न्ताः
 शंघ ११.
 अग्निहोत्रा(त्र-अ)यण^f - >
 यणिन्- -णिनः काश्रौ ४, ६,
 १२; -णिनाम् वैताश्रौ ४३, ३.
 अग्निहोत्रा(त्र-आ)रम्भ- -म्भः
 हिश्रौ ३, ५, १८.
 अग्निहोत्रा(त्र-अ)र्थ- -र्थम् शंघ
 ३५४.
 अग्निहोत्रा(त्र-आ)वृत्^g - -वृत्
 वाधूश्रौ २, १३ : ७; -वृता काश्रौ
 २६, ६, १९; काश्रौसं ३५ : १;

२; ६.
 अग्निहोत्रा(त्र-आ)हुति- -तिः
 वाधूश्रौ ३, ११ : १.
 अग्निहोत्रा(त्र-अ)होम- -मे
 आश्रौ २, ५, १५.
 अग्निहोत्रिन्- -त्रिणा जैश्रौका
 ३१; -त्रिभ्यः बौध ४, ५, २७.
 अग्निहोत्रि-त्व- -त्वम्
 आग्निगृ २, ७, २ : २.
 अग्निहोत्रे(त्र-इ)ष्टि- -ष्टिषु काश्रौ
 ४, १५, २८.
 अग्निहोत्रो(त्र-उ)च्छिष्ट^h - -ष्टम्
 वाधूश्रौ ४, ३८ : ५.
 अग्निहोत्रोच्छिष्ट-व्रतⁱ - -तः
 वाधूश्रौ ३, १८ : ४.
 अग्निहोत्रो(त्र-उ)च्छेष^j - -षेण
 माश्रौ १, १, ३, ३४.
 अग्निहोत्रो(त्र-उ)च्छेषण^k - -णम्
 आपश्रौ १, ११, १; १३, १५;
 बौश्रौ १, १ : ४; ३ : ३३; २०,
 ४ : ३; ५; ३२; ३३; भाश्रौ १,
 ११, ९; १४, ६; ७^l; ८^m; वैश्रौ
 ३, २ : २०; ८ : ६; हिश्रौ १, ३,
 ५४; हिपि १ : ११; १२; २ : ९;
 ३ : १६; -णस्य बौश्रौ २०, ४ :
 १; -णात् बौश्रौ २४, २३ :
 ७.
 अग्निहोत्रोच्छेषण-व्रत, ताⁿ
 -तः बौश्रौ २, २० : ७; १२,
 २० : २; -ता बौश्रौ २६, ३२ :
 २२.
 अग्निहोत्रो(त्र-उ)पचार- -रम्
 माश्रौ २, १, २, ४१.

अग्निहोत्रो(त्र-उ)पस्थान^o - -नम्
 लाश्रौ १०, १२, १; १०.
 अग्नि-होम- -माः वाश्रौ २, १, ८,
 १२; -मेषु आ २४, १, ३.
 अग्निहोम-चितिहोम^p - -मान्
 वाश्रौ २, १, ८, ११.
 अग्निहोम-प्रतिषेध-श्रुति- -तेः
 काश्रौ ७, १, २८.
 अग्निहोम-हविस्- -विषा वैगृ ६,
 १५ : ३.
 अग्नी ✓कृ, अग्नी-कृत्य या ७,
 २८; २९.
 अग्नी(मि-इ)ध्^q - -नीत् आश्रौ;
 -^rङ्नीत् आश्रौ; -ग्नीधः
 शाश्रौ; -ग्नीधम् काश्रौ; -ग्नीधा
 आपश्रौ; -ग्नीधे काश्रौ.
 अग्नीध्र^s - पावा ४, ३, १२०;
 ५, ४, ३६^t; -ध्रः आश्रौ १, ४,
 १३^u; २, १६, २०; १९, १७;
 वैश्रौ १६, १७ : ३^v?; १९, १७;
 -ध्रम्^w आश्रौ १, ३, २६; शाश्रौ
 ६, १२, ११; १३, २९, ४; १४,
 २२, ११; -ध्रस्य आश्रौ ९, ४,
 १९; -ध्रात् काश्रौ ९, ८, १३^x;
 १२, १५^y; -ध्राय आपश्रौ १५,
 ८, ७; लाश्रौ ४, १२, ८^z; -ध्रे
 काश्रौ ८, ७, ७; -^{aa}ध्रेण माश्रौ १,
 ६, १, २; अप्राय १, २^o; -ध्रौ
 बौश्रौ १७, १८ : ५.
 अग्नीध्री- -ध्याम्^{bb}
 काश्रौ १००^{cc}.
 अग्नीध्र-गमन- -नम्
 काश्रौ १०, २, १८.

a) षस. । b) वैप १, परि. च द्र. । c) कस. । d) विप. । बस. । e) अग्निहोत्रहोमे-
 नाऽऽप्रयणसिद्धि- इति तृस. । f) उप. भाप. < आ ✓वृत् । g) नाप. । तस. । h) द्रस. । i) नाप.
 (ऋत्विग्-विशेष-) । वैप १ द्र. । j) न. = अग्नीधःकर्मन्- । k) = अग्नीध्- । l) अग्नी^o इति पाठः? यनि.
 शोधः । m) पुं. न. (अग्न्याधान-स्थान-) । n) विप. (चमस-) । o) अग्नीध्रीयेण इति संस्कृतः टि. ।
 p) अत्र्यां शालाम् इति पाठः? अत्र्या शालायाः इति शोधः (तु. सप्र. काश्रौ ८, ६, १०) ।

आग्नीध्र-चमस^a- -सम्
आपश्रौ १२, २४, ३; -सात्
आपश्रौ १३, ४, १६; हिश्रौ ८,
८, ४६; ९, २, ६; -से बौश्रौ २५,
१९: १५.

आग्नीध्र-चात्वाल^b- -लौ
आपश्रौ ११, १३, १०.

आग्नीध्र-देश- -शम् बौश्रौ
९, १६: २८; -शात् काश्रौ १८,
३, २०; -शे बौश्रौ ९, १६: २९.

आग्नीध्र-पावक- -कम्
जैश्रौका १९६.

आग्नीध्र-प्रणयन- -नम्
काश्रौ ६, १०, १४.

आग्नीध्र-प्रथम^c- -मा:
आपश्रौ ३, ८, २; १५, ८, ८^d;
भाश्रौ ११, ८, १२; माश्रौ ४,
२, ३४; हिश्रौ २४, ३, ४; -मान्
हिश्रौ ६, ३, ५.

आग्नीध्र-भाग- -गम्
माश्रौ १, ८, ५, ८; २, ४, ५, १०;
११; वाश्रौ १, ३, ५, १२; वैश्रौ
७, २: ९.

आग्नीध्र-मन्दिर- -रम्
जैश्रौका २०३.

आग्नीध्र-यजमान- -नौ
आश्रौ १, १२, ३५.

आग्नीध्र-वत् काश्रौ १०,
२, २०.

आग्नीध्र-विनाश- -शे
वैश्रौ २१, १२: १.

आग्नीध्र-साधारण- -णा-

भ्याम् पावा ५, ४, ३६.

आग्नीध्र-हविर्धान^b-

-नयो: हिश्रौ १७, ६, ३०.

आग्नीध्रा(ध्र-अ)गार^a-

-रम् आपश्रौ २१, ६, १; बौश्रौ
६, २७: २९; -रस्य बौश्रौ ६,
२७: ३१; बौशु ४: १४; -रे
आपश्रौ १५, १८, १४; बौश्रौ
६, ३०: २५; २५, १२: ५;
भाश्रौ २, १५, ७; वैश्रौ १४,
१२: ४; हिश्रौ ७, ७, २८; ८,
६, १०; ९, १, २९; ३, ३३; ४, ५४.

आग्नीध्रा(ध्र-अ)प्र^c- -प्रा:

वैश्रौ १३, १०: ८^d.

आग्नीध्रा(ध्र-आ)दि^e-

-दीन् वैश्रौ १४, १७: १०.

आग्नीध्रा(ध्र-आ)लम्भन-

-नात् काश्रौ १८, ६, ७.

आग्नीधीय^f- -य: बौश्रौ

२७, १०: २२; -यम् आश्रौ ४,
१०, ४; -यस्य शाश्रौ ६, १३, ९;
-यात् आश्रौ ४, १२, ४; वैताश्रौ
२१, १०^g; -याय माश्रौ २,
२, ४, १; -ये आश्रौ १, १२, ३२;
-येण आपश्रौ ११, १४, ६.

आग्नीधीय-गार्ह-

पत्य^b- -त्यौ बौश्रौ १४, २९:
२.

आग्नीधीय-मार्जा-

लीय^b- -यौ बौश्रौ १८, २४: १४.

आग्नीधीय-लक्षण^c-

-णम् वैताश्रौ १५, १४.

आग्नीधीय-विनाश^a-

-श: बौश्रौ २९, १: ६.

आग्नीधीय-शयन^b-

-न: बौश्रौ १४, २७: ३.

आग्नीधीय-सकाश^a-

-शे बौश्रौ २५, १५: १७.

आग्नीधीय-होम-

-मात् वैताश्रौ १५, १७.

आग्नीधीया(य-अ)

ग्नीषोमप्रणयन-वसतीवरीग्रहण^b-

-णानि आश्रौ १२, ४, १५.

आग्नीधीया(य-आ)

दि- -दि वैश्रौ २१, ११: २.

आग्नीधीया(य-आ)

यतन^a- -नम् आश्रौ ४, १०,
१.

आग्नीधीया(य-आ)

हवनीय^b- -यौ बौश्रौ १४, २९:
३.

आग्नीध्रो(ध्र-उ)क्षेत्र^b- -त्रे

काश्रौ २४, ४, ४६.

आग्नीध्रो(ध्र-उ)प-

स्थिति^a- -ति: जैश्रौका १३३.

अग्नीत्-प्रथम^c- -मान् आपश्रौ
३, ३, ४.

अग्नीत्-प्रेषण^b- -णे पा, पावा
८, २, ९२.

अग्नी(मि-इ)न्द्र^d- -न्द्रयो: माश्रौ १,
४, २, ६; -न्द्राभ्याम् मागृ २,
३, ११^e; १०, ३; -न्द्रौ आश्रौ

२, ९, १३; गोगृ २, ८, १९.

आग्नीन्द्र^k- -न्द्रम् अश्रौ १

a) नाप.। षस.। b) द्रस.। c) विप.। बस.। d) सपा. °ध्रप्रथमा: <> ध्राप्रा: इति पाभे.।

e) विप.। नाप. (अग्नि-, धिष्ण्य- प्रभृ.)। वैप १ द्र.। f) पाठ: ? आग्नीधीयम् इति शोध इति c.

(तु. लाश्रौ २, ६, १३ देवयाज्ञिक: [काश्रौ ९, १४, २३]), पक्षान्तरे च आ आग्नीधीयात् इति च।

g) विप.। बस. वा उस. वा। h) न. (ऋत्विग्द्वय-कर्मन्-)। उप. <उञ्जेवृ-। i) वैप १, परि. च

द्र.। j) सपा. आगृ २, २, ४ कौसू ७४, १५ इन्द्राग्निभ्याम् इति पाभे.। k) सास्यदेवतीय: अण्

प्र. (पा ४, २, २४)।

१६१^a; -न्द्रस्य माश्रौ ५, २, ७, ४.
 अग्नीन्द्रा(न्द्र-आ)दि^b- -दीन्
 अश्र ३, १६.
 अग्नी(मि-इ)न्द्र-विश्वानर-देवत^c-
 -तानि अश्र ६, ३५.
 अग्नी(मि-इ)न्द्र-सूर्य^d- -र्याणाम् ब्रदे
 २, ७०.
 अग्नी(मि-इ)न्धन^e- -नम् निस् १०,
 ११ : २; ३; कागृ १, ३०.
 अग्नीन्धन-भैक्षचरण^f- -णानि
 गौध २३, २०; -णे गौध २, १२.
 अग्नी-पर्जन्य^g- -न्यौ वृदे ५, ११८.
 अग्नीय- पा ४, २, ९०.
 अग्नी-वरुण^h- पा ६, ३, २७; -णयोः
 काश्रौ १२, ७, १५; माश्रौ ५, १,
 ३, २७; -णाभ्याम् काश्रौ १०, ८,
 २९; ऋश्रौ ८, २० : ३; -णौ
 आश्रौ ६, १३, ७; शाश्रौ ८, ११,
 ६; आपश्रौ ८, ८, ८; बौश्रौ ८, २० :
 ४१; माश्रौ १, ७, ४, ४०; २, ५, ४,
 २८; ५, १, ३, २४; २७^१; २, १,
 ३^१; वैश्रौ १६, २५ : ८; हिश्रौ
 ९, ५, ३२.
 आग्निवारुणⁱ- -णम् आपश्रौ ५,
 २९, ९; बौश्रौ ३, ३ : ८; २०,
 १९ : ११; भाश्रौ ५, २१, ७;
 माश्रौ ५, १, ५, ६; वैश्रौ १, २० :
 ११; हिश्रौ ३, ६, २६.
 आग्निवारुणी- -णी शाश्रौ २,
 ५, ३०; -ण्या आपश्रौ १५, १८,
 ८; -ण्यौ आग्निगृ १, ६, ३ : २;
 शुश्र २, ४५१.
 अग्नी(मि-ई)श^j- -शयोः वैगृ १,
 ११ : ३.
 अग्नी-षोम^k- पा ६, ३, २७; ८,

३, ८२; -मयोः आश्रौ १, ३,
 १०; ३, ४, ९; शाश्रौ १, ९, २^३;
 ४, ९, ५; काश्रौ २, ५, १५; ३,
 ५, १७; आपश्रौ १, २४, ५; ४, ९,
 ९; १३; बौश्रौ ३, १८ : ११; १५;
 भाश्रौ ४, १४, २; ५; माश्रौ १, ४,
 २, ५; वाश्रौ १, १, ३, ५; ३, १, १८;
 वैश्रौ ६, ८ : १; ९ : ५; हिश्रौ ६,
 ३, २^३; वैताश्रौ १५, १४; शुश्र
 १, १२५; चाश्र २:१०; ऋ-मा
 आश्रौ १, ६, १^३; शाश्रौ १, ८,
 १०; ५, १९, ६; ८; १४; १६;
 आपश्रौ ६, २३, १; बौश्रौ १३,
 २६ : ८; ११; माश्रौ ५, १, ५,
 २६; हिश्रौ २१, २, ४८; २२, ४,
 ८; भागृ २, २० : १२; कौसू
 ५, १^३; ८०, ३५; -ऋमाभ्याम्
 शाश्रौ ५, १४, ७^६; काश्रौ २,
 ३, ३६; आपश्रौ १, १८, १६;
 ११, १७, २; बौश्रौ १, ५ : १९;
 ६ : ८; ७:१०; ९ : ३; १०; १६ :
 २१; ६, ३० : १८^६; भाश्रौ १,
 १९, १३; २०, ११; २३, ४; २४,
 ११; २५, ९; २, १८, ८; माश्रौ
 २, २, ४, २०; वाश्रौ ३, ४३ :
 ४^६; ४, ६५ : १६; वैश्रौ ४, ५ :
 १४^६; १४, १५ : ५; १७ : ६;
 २०, २२ : ९; हिश्रौ ७, ८ : १९;
 आगृ १, २, २; आग्निगृ १, ७, ३ :
 १४; वैगृ १, १५ : ९; जैगृ १,
 ३ : १७; कौसू २, २; ७३, ११;
 गौध २६, १६; शुश्र १, ४९;
 ३८०; चाश्र ५ : १; -मौ आश्रौ
 १, ३, ९; २, १, २७; ३, ६, ३; ४,
 १०, १; शाश्रौ १, ५, ३^३; ७,

६^३; ८, ७^१; १४, ९; ११; ४, ९,
 ५^१; ५, १४, १; १८, १०^१; १९,
 ७^१; १५^१; काश्रौ ३, ३, २३;
 ५, १७^१; आपश्रौ २, २०, १;
 कागृ ४२ : १०^६; बौश्रौ १,
 १७ : ३; ३, १८ : १५; १०, ५५ :
 ७^३; ११, २ : १२; १२, ७ :
 ८; ९; १७ : २४^३; १५, १७ : ७^३;
 १८, २१ : ८; ९; ५० : १३; २५,
 ३३ : १७; १८; २७, १२ : ९;
 माश्रौ १, ४, २, ५^१; ५, २, १६,
 ८; वाश्रौ ४, २ : ४; ६७, १;
 वाश्रौ ११, १, ३, ५; ४, ४, ४१;
 हिश्रौ २१, २, १२^१; जैश्रौ ७ :
 १; २४ : ८; द्राश्रौ १, २, २९;
 २, २, ४२; १५, १, १, लाश्रौ १,
 ६, ३९; ५, ९, १; वैताश्रौ १५,
 १६; मागृ २, १२, २^१; कौसू ४,
 १९; ७२, २६; शुश्र ४, १७६;
 अश्र १, ८; २, ३६; ८, ९; -मौ
 आश्रौ ३, ८, १^१; शाश्रौ १, ८, ६;
 ५, १८, ९; आपश्रौ ६, १६, ५;
 २२, १; बौश्रौ २, २१ : ६; १३,
 २६ : ११; भाश्रौ १, २०, ७;
 माश्रौ १, ६, २, ६; वैश्रौ २, ७ :
 २; हिश्रौ ६, ६, १०; वैगृ ३,
 १७, ७; कौसू ५, १; ऋश्र २, १,
 ९३; वृदे ३, १२४.
 अग्नीषोम^h- -मस्य बौश्रौ २५,
 ११ : १७.
 अग्नीषोम-प्रणयन- -नात् शाश्रौ
 ५, ६, ९; काश्रौ ११, १, ७^१; १२,
 १, २५^१; द्राश्रौ १४, ४, १८;
 -नाय काश्रौ ११, १, १२; -ने
 जैश्रौका ८०.

a) अग्नी^o इति पाठः? यनि. शोधः। b) विप.। बस.। c) विप.। द्रस. > बस.। d) द्रस.।

e) नाप. (अग्निहोत्र-).। तस. उप. भाप.। f) वैप १, परि. च द्र.। g) अग्नि^o इति पाठः? यनि. शोधः।

h) =अग्नीषोमीय-। सास्यदेवतीयस्य प्र. लोपः उस्. (तु. पाम ४, ३, ६८)। i) 'षोमीय' इति अग्र.।

अग्नीषोम-भाग^a - गौ या १४, ३१.

अग्नीषोम-विधान^b - नात् मीसू १०, ८, ५५.

अग्नीषोमीय, या^b - पा ४, २, ३२; -यः शांश्रौ; -यम् आश्रौ; -यया माश्रौ; -यस्य आश्रौ; -या हिश्रौ; -याः शांश्रौ; -याणाम् माश्रौ; -याणि आपश्रौ ३, १६, १०^c; -यात् शांश्रौ; -याम् काश्र ४७, ११; -याय काश्रौ; -यायाः आपश्रौ; -यायाम् दाश्रौ १, ४, १; -ये, -येण आश्रौ; -यौ हिश्रौ २२, ४, ८.

अग्नीषोमीय-काल^b - ले आपश्रौ २२, ३, ९; वाश्रौ ३, २, ६, ७; हिश्रौ १७, १, ४६.

अग्नीषोमीय-दर्शन^b - नात् काश्रौ ६, १०, १४.

अग्नीषोमीय-पशु^d - शुना जैश्रौका ८२; -शुम् वैश्रौ १४, १५ : २.

अग्नीषोमीय-पशु-पुरो-डाश^e - शम् हिश्रौ १३, ५, ३.

अग्नीषोमीय-प्रणयन-वत् काश्रौ ११, १, १७.

अग्नीषोमीय-प्रभृति- त्ति दाश्रौ १, ४, १४; लाश्रौ १, ४, १०.

अग्नीषोमीय-रक्षणा^f - ना-याम् बौश्रौ २२, १४ : १०.

अग्नीषोमीय-वत् काश्रौ ९, १, ४; आपश्रौ १२, ३, २^g.

अग्नीषोमीय-वपा^h - पा-याम् दाश्रौ १, ३, १८; ४, २३;

१५, १, १६; लाश्रौ १, ३, १८; २१; ४, १८; ५, ९, १४.

अग्नीषोमीय-विकार- -राः आपश्रौ २४, ३, ४२; -रान् बौश्रौ २७, १४ : २१.

अग्नीषोमीय-संस्था- -स्थायाम् आपध १, १८, २४; हिध १, ५, ९३.

अग्नीषोमीय-सवनीयⁱ - -ययोः वैश्रौ १२, १३ : १९; हिश्रौ ७, १, ७०; -यौ शांश्रौ ६, १, २१.

अग्नीषोमीय-स्थान- -ने काश्रौ २२, ३, २९.

अग्नीषोमीयो(य-उ)पसद्^b - -सत्सु काश्रौ ८, १, ११.

अग्नीषोम्य- पा ४, २, ३२.

अग्नेः-कुलाय^b - ऋयम् माश्रौ १, ७, ३, ४४; वैश्रौ १०, ६ : ४; हिश्रौ ४, २, १८; -ये वैताश्रौ ४०, २; -यौ आपश्रौ २२, १३, ६.

अग्ने(मा-इ)न्द्र^b - > आग्नेन्द्र^b -

-न्द्रः शांश्रौ ३, १२, ३; -न्द्रम् आपश्रौ ६, २९, १०; २१, २३, ९; बौश्रौ १५, २३ : ५; २६ :

६; भाश्रौ ६, १६, १४; माश्रौ १, ६, ४, १३; वाश्रौ १, ५, ५, ५; वाधूश्रौ ३, ८६ : ७; हिश्रौ ३, ८, ७६;

वैताश्रौ ८, ६; -न्द्राः बौश्रौ १५, २३ : १४; -न्द्रान् माश्रौ १, ६, ४, ४; -न्द्राय माश्रौ १, ६, ४, ११; -न्द्रेभ्यः वाधूश्रौ ३, ८६ : ९.

आग्नेन्द्री^b - -न्द्रो ऋञ्ज २, ३, २५; ८, ४५; बृदे ४, १०२;

-न्द्रीम् शुञ्ज १, ४७४.

आग्नेन्द्र-दक्षम^l - -माः

वाधूश्रौ ३, ८६ : १०.

अग्ने-या(न >)नी^m - -नी बौश्रौ १०, ३२ : १०; हिश्रौ ११, ७, ३७^k.

अग्नेर्-अतिव्याध^b - -धः बौश्रौ १८, ४८ : ७.

?अग्नेरन्^l अप्राय ६, ६.

अग्नेर्(अयन-) लाश्रौ १०, १३, ५.

अग्नेर्-अर्के^b - -र्कः दाश्रौ ९, ३, ३; ४; लाश्रौ ३, ६, २२; २३; निसू ९, २ : ३३; ५ : ३६; -र्केण जैश्रौ ४ : ८.

अग्नेर्-उक्थ^b - -क्थेन बौश्रौ १०, ४९ : १६; १७.

अग्नेर्-विमोक^b - -कम् आपश्रौ १७, २३, १०.

अग्नेर्-वत्^b - -तम् निसू ७, ९ : २२; -तेन जैश्रौ ४ : ८.

अग्नेर्वेता (त-आख्या >)ल्य-ल्यम् जैश्रौका ८१.

अग्नेर्-हृदय^b - -यम् आपश्रौ १७, ५, १४^m; -येन बौश्रौ १०, ४९ : १२ⁿ.

अग्नेः-सहस्रसाव्य^o - -व्यम् शांश्रौ १३, २७, ७; निसू १०, ९ : ३०; -व्येन आपश्रौ २३, १२, २; हिश्रौ १८, ४, २०^p.

अग्नेः-स्तोम^b - -मे वैताश्रौ ४०, २.

अग्नौ ✓ कृ पाग १, ४, ७४.

अग्नौ-करण^o - -णम् कौश्र ३, १४, १५; शांश्र ४, २५; वैश्र ६६ : १४; बौश्र ३, १२, ४; ६; १३; भाश्र ३, १७ : १०; जैग २, ५ :

a) षस. । b) वैप १, परि. च द्र. । c) °यानि इति पाठः ? यनि. शोषः । d) कस. ।

e) कस. । उप. द्रस. । f) विप. । द्रस. । g) द्रस. । h) नाप. । षस. पूष. ष. अलुक् । i) विप. । बस. ।

j) वैप १ द्र. । k) °यानि इति पाठः ? यनि. शोषः । l) पाठः ? आग्नीध्र - > -आणि इति शोषः । m) नाप.

(इयका-विशेष-). । n) नाप. (साम-विशेष-). । o) नाप. (क्रतु-विशेष-). । p) °साव्येन इति पाठः ? यनि. शोषः ।

१७; विध २१, १३; -णे
 आभिगृ ३, ४, ५ : १.
 अग्नौकरण-शेष^a - -खेण शंघ
 २२५; बौध २, ८, १३.
 अग्नौकरण-होम^b - -मः कप्र
 २, ८, १२.
 अग्नौकरण(श-आ)दि- -दि
 कौगृ ३, १४, ९; शांगृ ४, १, १३.
 अग्न्य(मि-अ)गार^c - -रम् आपथौ
 १, ६, ११; बौधौ २४, १८ : ८;
 -रस्य बौधौ १, १ : १६; २०,
 ५ : ९; १६ : १७; २०; २६, ६ :
 ४; -रात् बौधौ २०, ६ : २२;
 २१ : १६; २४ : ४३; २१, ४ :
 १४; -रान् आमिगृ ३, ६, २ :
 १३; -रे काश्रौ ४, ७, ८; आपथौ
 १, २, १०; बौधौ २०, ३ : २८;
 माश्रौ १, १, १, २२; वाश्रौ १,
 २, १, ११; वैश्रौ ३, ५ : १३;
 हिश्रौ १, २, २१; लाश्रौ ९, २,
 २२; आमिगृ २, ७, ६ : १८;
 बौध २, ३, ५८; १०, १३; -रेषु
 काश्रौसं ३२ : ५.
 अग्न्यगार-तृण- -णैः हिपि २ : ७.
 अग्न्यगार-द्वार^d - -रम् काश्रौ ८,
 ६, १०.
 अग्न्यगारिक^e - -कः बौधौ २०,
 २५ : ८.
 अग्न्य(मि-अ)ङ्ग- -ङ्गम् मीमू ३,
 ६, ३५.
 अग्न्य(मि-अ)तिप्राह^f - -ह्यस्य मीसू
 १०, ८, २२.
 अग्न्य(मि-अ)दग्ध- -दग्धम् वैश्रौ १,
 १ : ९.

अग्न्य(मि-अ)द्वैत-वादि(न>)नी^g-
 नीम् शुभ्र २, ३४६.
 अग्न्य(मि-अ)नुमति^h - -तो काश्रौसं
 ६ : ८.
 अग्न्य(मि-अ)न्त- -न्तेषु बौशुपः १९.
 अग्न्य(मि-अ)न्तर-संस्वरीⁱ - -रौ वैगृ
 ३, ६ : ४.
 अग्न्य(मि-अ)न्वाधान^j - -नम् काश्रौ
 २, १, २; आपथौ १, १४, १७; ४,
 २, ८^३; १०, ४, १२; १३; बौधौ
 १३, १ : ७; २४, ३७ : ४; भाश्रौ
 ४, १, ९; ३, २^३; १०, १४, २; वाश्रौ
 १, ६, २, ८; वैश्रौ ३, ९ : ११;
 हिश्रौ १, ४, १६; ६, १, २१; २२;
 ७, १, ७८; मीसू १२, १, १९;
 -रस्य आपथौ ७, १, ४; भाश्रौ
 ७, २, १५; -नात् कागृउ ३९ :
 ७; -ने बौधौ २३, १९ : १८.
 अग्न्यन्वाधान-प्रतिप (त्क>)-
 त्का^k - -त्काः बौधौ २३, १४ :
 २२.
 अग्न्यन्वाधान-प्रभृति- -ति
 बौधौ २४, ३ : १; २९, १० : २३.
 अग्न्यन्वाधान-व्रतोपायन^l-
 -नाभ्याम् अप्राय ५, ३.
 अग्न्यन्वाधान-व्रतोपायना (न-
 आ)रण्यभोजन-दान-ब्रह्मवरण^m-
 -णानि काश्रौ ८, १, ४.
 अग्न्यन्वाधाना(न-आ)दि- -दि
 वैश्रौ ११, १ : ५.
 ?अग्न्यन्वाधीयाजमानानिⁿ भाश्रौ
 ४, १, ११.
 अग्न्य(मि-अ)भिमुख^o - -त्तौ कप्र
 २, ५, १८.

अग्न्य(मि-अ)भियजन^p - -नः निसू ७-
 ९; १६; २४; -ने निसू ७, ९; २३-
 अग्न्य(मि-अ)भिषेक- -कः बौधौ
 १५, १८ : १६; ३२ : ६; ३६ :
 १२.
 अग्न्य(मि-अ)भिहार^q - -रौ बौधौ
 २४, ९ : ५.
 अग्न्य(मि-अ)भीज्या^r - -ज्याम् निसू
 ७, ९ : १८; -ज्यायाम् निसू ७,
 ९ : २२.
 अग्न्य(मि-अ)र्थ- -र्थम् वैगृ ६,
 १२ : ५; आपथ २, २२, २१;
 वैध ३, ५, १; हिध २, ५, १५२.
 अग्न्य(मि-अ)वभृथ^s - -थम् आपथौ
 १४, २१, ८; वैश्रौ २१, ७ : ७;
 हिश्रौ १५, ५, २९.
 अग्न्या(मि-आ)ख्या- -ख्यायाम् पा
 ३, २, ९२.
 अग्न्या(मि-आ)गार^t - -रम् कप्र ३,
 ९, १४; -रस्य काश्रौ ४, २, ११;
 अप ३०, १, ३; -राणि भाश्रौ
 १, ६, १४; -रात् गोगृ ३, ९, ४;
 भाश्रौ १, ३, २; वैश्रौ १, १६ :
 ३; मागृ २, १२, ३; अप ४०,
 १, ६; शंघ ११४.
 अग्न्यागारिक^u - -कः आपथौ
 १९, १६, १२; बौधौ २०, २५ :
 ८; हिश्रौ २२, १, ९.
 अग्न्या(मि-आ)चार्य^v - -र्यौ गोगृ २,
 १०, १६.
 अग्न्या(मि-आ)दि- -दि कप्र २, ४,
 ८; -दिषु वैगृ २, ९ : ९ -दीन्
 वैगृ १, १३ : २; ३, १३ : १; अंश
 ५, २८; वृदे ३, ५१; -दीनाम्

a) षस. । b) विप. (यूप-). । ठन् प्र. (पा ४, ४, ७०, आगार- इतीह उसं.) । c) ढस. ।
 d) विप. (ऋच्-) । उस. पूप. =अग्निना अद्वैतम् =ऐक्यम् इति तृस. । e) षस. । पूप. कस. ।
 f) विप. । बस. । g) पाठः ? अग्नीन् अन्वाधीयमानान् इति शोधः । h) विप. (दर्शपूर्णमास-) । बस. ।
 =अग्निप्रचार- इति वेङ्क. । i) षस. । उप. भाप. । j) नाप. (कर्म-विशेष-) । तस. ।

चाग्र २:११.

अग्न्यादि-देव- -वान् अप ३०^३,
१,१४.

अग्न्यादि-बहु-देवता-> ष्वत्य-
-स्ये अअ ३,२६.

अग्न्यादि-संभार^४- -रान् वैगृ ५,
२:२२.

अग्न्या(मि-आ)दि(क>)का^५- -का:
शुअ १,७.

अग्न्या(मि-आ)धान- -नम् मीस्
१२, २,१८^८; -नात् वैगृ ३,
१९:८; ६, १५:२; -ने बौध
१,६,१०.

अग्न्या(मि-आ)धेय^६- -यम् आश्रौ
२, १, ९; १७; ३, १२, २९;
शाश्रौ २,१, १; १४, २, २१;
काश्रौ ४, ७, १; २४, ६, ३२;
आपश्रौ ५, १, १; ७, १२; २९,
१४; बौश्रौ २,६:१; १५:३;
२१:१६^२; ३, ३:२१; २०,
१६:१; १९:२४; २४,४:६;
५:२; ११:१३; १८:१३;
१९:८^३; १०; ३५:१०; २६,
२९:२^४; २७,८:४; २९, ९:
१४; १२:१३; १६; भाश्रौ ५,
२, ८; ९; २१,१३; वाधूश्रौ ३,
१:१०; ३:१; १३:१३; १८:
१; १५; ४, ३२:२; वैश्रौ १,
१:१; २०, १:२; १४:५;
३१:५; ३२:५; हिश्रौ ३,२,
६०; द्राश्रौ १३, ४, १६; लाश्रौ
५, ४, २३; वैताश्रौ ५, १; ४३,

१; आग्निगृ १, २, १:११; ३,
७, ४:२०; बौगृ ३, १:२३;
बौपि २, ४, ४; वैगृ १, १:८;
हिपि २३:११; आपध १, १,
६; बौध २, २, ७६; हिध १,
१, ६; गौध ८, १७; शुअ १,
१६३; मीस् ३, ६, ११; ६, ८,
२२; -यस्य शाश्रौ १४,२,२२;
बौश्रौ २,८:१; २५:४; वाधूश्रौ
३,१३:१२; ४,७५:४०; वैश्रौ
१, १५:७; हिश्रौ ६, ५, १;
जैश्रौ २२:१७; मीस् ५,४,६;
१०,३, ३०; -यात् शाश्रौ १४,
२,१६; भाश्रौ ५,३,१५; आपध
२, ११, १३; बौध २, २, ७५;
हिध २, ४, २८; -यानि बौश्रौ
२४, १६:५; ९; -याय
वाश्रौ १,४,४,४०; वाध ८, ९;
-ये आश्रौ १, ४, १; शाश्रौ ४,
६,१५; आपश्रौ ५, १६, ६; ९,
१२,३; बौश्रौ २,१:१२; १५:
४; २४,११:३; १२:३; १७:
१०; २५, ३:२२; २९, १२:
४; भाश्रौ ५, १०, ६; ७; ६,
४-५,१०; माश्रौ ५, १, १,३२;
२, १५, २५; वाश्रौ १,५, १,६;
२०; ६,२,६; वैश्रौ १, ११:४;
१३:१०; २०,४:१; हिश्रौ ३,
४,३८; ६, ५, १३; जैश्रौ २२:
१; द्राश्रौ १२, १, १६; लाश्रौ
४, ९, १०; आग्निगृ २,४,४:
१८; अप्राय ४, ३; बौध ३, ७,

१४; मीस् ६, १, २६; ११,३,
४३; -येन शाश्रौ ३, १९, १७;
१४, २, १; बौश्रौ १७,१७:१;
भाश्रौ ५,१७,२;४; ८,२२,१०;
माश्रौ १, ६, ५, ३; वाधूश्रौ ४,
३८:११; १३; हिश्रौ ३, ६,१;
-येषु लाश्रौ ४,१२,६^१.

अग्न्याधेयी^७- -यी

वाधूश्रौ ३,१८:१७,
अग्न्याधेयिक^८- -कम् बौश्रौ
३, १:१२; -कस्य हिश्रौ ३,
६,१७; -का: बौश्रौ ३, १:६;
-कान् मागृ २,१,१५^१; -कानाम्
भाश्रौ ५, २१, १२; -कानि
बौश्रौ २०, १९:८; २४, १७:
१४; -के आपशु ४,१; बौशु
३:१; हिशु २,१; -केषु बौश्रौ
२०,१८:७.

अग्न्याधेयिकी- -की:

काश्रौ ४, ११, १३^१; आपश्रौ
५, २९, १; भाश्रौ ५,
२०, १३; हिश्रौ ६, ५, ३९^१;
-कीषु वैताश्रौ ६, ११; -क्य:
माश्रौ १, ५, ५,४; ६,५,११^१;
भाश्रौ ५, १५,६^१.

अग्न्याधेय-कम^१- -मेग वैध २,
४:३.

अग्न्याधेय-च्छन्दस्^२- -न्द:
बौश्रौ २५,३:२२.

अग्न्याधेय-दक्षिणा^१- -णा:
बौश्रौ २,७:२३; १९:६; २०,
१९:९; भाश्रौ ५,१२,२१.

a) कस. । b) विप. (देवता-) । बस. । समासान्तः कप् प्र. । c) अग्न्यन्वाधानम् इति प्रया. पाभे. । d) नाप. । वैप १ द्र. । e) ञा^१ इति पाठः ? यनि. शोधः । f) पाठः ? थ्ये(य-इ)ष्टि-> -ष्टिषु इत्येतत्परः शोधः द्र. (तु. सपा. द्राश्रौ १२, ४, ६) । g) नाप. (अग्न्याधेय-प्रकरण-) । ङीष् प्र. उसं. (पा ४,१, ४१) । h) विप. । तत्र भवीयष् ङ् प्र. (पा ४, ३, ६८) । i) ष्यिक्यान् इति पाठः ? । j) अग्न्या^१ इति पाठः ? यनि. शोधः । k) ष्यिकाः इति पाठः ? यनि. शोधः । l) षस. ।

अग्न्याधेय-देवता^a - ताभ्यः पागृ
१, २, ७, ९.

अग्न्याधेय-नक्षत्र^a - त्राणि हिश्रौ
३, २, ४.

अग्न्याधेय-पुनराधेया(य-अ)ग्नि-
होत्र-दर्शपूर्णमास-दाक्षायणा(ए-
आ)प्रयण^b - णाः काश्रौ २२,
७, २२.

अग्न्याधेय-प्रभृति^c - ति बौध
२, २, ७६; -तिषु बौगृ १, २,
६४; -तीनि आश्रौ १, १, २.

अग्न्याधेयप्रभृत्य (ति-अ)
न्त^c - न्ताः आश्रौ २, १५, २.

अग्न्याधेय-वत् काश्रौ ४, ११,
१४; २०, १, १७; आपश्रौ ५,
२६, २; बौश्रौ २२, १० : १६.

अग्न्याधेय-विधान^a - नेन वैध
२, ५, ६.

अग्न्याधेया(य-अ)न्त^c - न्तान्
द्राश्रौ १२, ४, १८; लाश्रौ ४,
१२, १३.

अग्न्याधेये(य-इ)ष्टि^a - ष्टिभिः
काठश्रौ १६; -ष्टिषु माश्रौ ५, १,
१, १५; द्राश्रौ १२, ४, ६; -ष्टीनाम्
माश्रौ ५, १, २, १.

अग्न्या(मि-आ)यतन^a - नम् बौश्रौ
१०, १९ : १५; मागृ २, १, १५;
वैगृ १, ८ : १; ४; वैध ३, ९, ३;
-नानाम् बौश्रौ २०, १६ : ५५;
वैश्रौ ३, ५ : १३; -नानि शाश्रौ
१८, २४, २७; बौश्रौ २, १६ : ६;
८, २२ : १३; १२, ५ : ७; ८;
१४; १६; आश्रौ ५, ४, १२;
द्राश्रौ १२, १, २२; लाश्रौ ४,

९, १६; हिपि २१ : १४; २२ :

१; कौस् ७२, ४०; -ने वैश्रौ ८,

३ : ११; हिश्रौ ५, १, ६; ७, ४,

५३; आमिगृ २, ३, १ : १; २ :

५; वैगृ ६, १ : १६; जैगृ १, ६ :

५; अप ४०, २, १; वैध २, ४, १;

-नेषु बौश्रौ १५, ३८ : ११;

वैश्रौ १, १९ : १४.

अग्न्यायतन-देश^a - शम् बौगृ

१, ३, १.

अग्न्या(मि-आ)लय^a - यम् वैगृ १,

९ : २; -यात् जैश्रौका १७;

-ये वैगृ १, ११ : ३.

अग्न्यालय-प्रोक्षणो(ए-उ)ल्लेख-

ना(न-आ)दि-कर्मन्^d - र्म

वैध १, ६, ३.

अग्न्या(मि-आ)शा^e - श्शाप्र^b - श्रैः

कप्र २, ८, ४.

अग्न्या(मि-आ)हित- पा २, २,

३७.

†अग्न्यु(मि-उ)कथ^a - कथम् शाश्रौ

९, २५, १.

†अग्न्यु(मि-उ)कथ्य^a - कथ्यम्

काश्रौ १८, ३, २.

अग्न्यु(मि-उ)त्तर^c - राणि शुप्रा २,

२१.

अग्न्यु(मि-उ)त्पात^a - तान् अप ५३,

५, २; -ते आपध १, ११, ३०;

हिध १, ३, ८०.

अग्न्यु(मि-उ)त्सादिन्^f - दी शंध

३७७ : १७; ४०६.

अग्न्युत्सादि-निराकृत्यु(ति-उ)प-

पातक^b - केषु गौध २२, ३६.

‡अग्न्यु(मि-उ)दक^b - > °क-शेष-

-वेण आपध १, ४, २०; हिध १,
१, १३९.

२अग्न्यु(मि-उ)दक^b - कैः शंध
२५६.

अग्न्यु(मि-उ)दप्रमण^a - णम् काश्रौ
१६, ५, ११.

अग्न्यु(मि-उ)पघात^a - तेषु आपश्रौ
९, १०, १०; बौश्रौ २७, २ :

१४; भागृ ३, २१ : १३.

अग्न्यु(मि-उ)पदेश^b - शात् पागृ २,
१३, ५.

अग्न्यु(मि-उ)पसमाधान^a - नम्
विध ७४, ३.

अग्न्यु(मि-उ)पसमिन्धन^a - ने
आपश्रौ ६, १३, १०.

अग्न्यु(मि-उ)पस्थान^a - नम् आपश्रौ
६, १५, १२; १६, १; २५, १;

काठश्रौ २१; माश्रौ ६, १, १; ३,

१४; ४, ५; वाधूश्रौ २, ३ : १;

वाश्रौ १, ५, ३, ११; वैताश्रौ ७,

२५; आमिगृ १, २, १ : १२; बौगृ

३, १, २३; कप्र ३, १, १४; अप

४५, २, १५; -नस्य शाश्रौ

२, १४, ६; -ने वाधूश्रौ २, ३ :

३; मैअ २३; -नेन माश्रौ ६,

३, ९.

अग्न्युपस्थान-याजमान^b - ने

वाश्रौ १, ५, ४, ३२.

अग्न्युपस्थान-वत् आपश्रौ ६,

२६, ६.

अग्न्यु(मि-उ)ल्का-निपात^f - ते

वैध २, १२, ३.

अग्न्यु(मि-उ)षस्^b - षसाम् साश्र.

१, ४०.

a) षस. । b) द्वस. । c) बस. । d) षस. > द्वस. > बस. > कस. । e) नाप. । षस. उप.

= दिशा. । f) विप. > नाप. । उस. उप. < उ(दु>)त् √सद् । g) नाप. (अग्निहोत्रोच्छिष्ट-उदक-)

मध्यमपदलोपी कस. । h) = अग्निप्रकरणे उपदेश- इति कृत्वा सस. । i) द्वस. > षस. ।

अशान्यु^o इति C. ।

१अग्र, प्रा^०- पाउ २, २८; पाग ५, ३, १०३; -ग्रम् आश्रौ ४, ६, ३^b; या ११, ६^०; -ग्रम्-ग्रम् अप ४२, १, ७; ८; -ग्रस्य वाश्रौ; -प्राणाम् काठश्रौ ३; १२; -प्राणि आपश्रौ; -प्रात् काश्रौ; -प्रात् शाश्रौ ४, १६, २; -प्रे आश्रौ २, ५, ३^०; ४, ४, २^{१०}; आपमं १, ५, ३^१; शान्त १, २८, १५^६; पागृ १, ७, ३^१; मागृ १, ११, १२^१; कौस् ७८, १०^१; आपध २, ४, २७^b; -प्रेऽ-प्रे आश्रौ ३, ७, ३; -प्रेण^१ आश्रौ १, १२, ८; -प्रेषु काश्रौ; -प्रेः आपश्रौ।
अग्र-कारि(न् >)णी^१- -ण्यः या ३, ८.
अग्र-रूण्ड^k- -ण्डात् सु २८, १.
अग्र-गति- -तौ हिध २, १, ८०^b.
अग्र-गमन- -नेन या ६, १६.
अग्र-गामिन्- -मिनि पा ८, ३, ९२.
अग्रगामिनी^१- -न्यः या ३, ८.
अग्र-गालि(न् >)नी^१- -न्यः या ३, ८.

अग्र-ग्राम^१- -माभ्याम् पावा ३, २, ६१.
अग्र-ज^m- -जः कप्र १, ६, ११; ३, ५, ११.
अग्रजा(ज-अ)ण्डज^k- -जे सु ३, २.
अग्रजा(ज-अ)प्रिम- -मः कप्र १, ६, २.
अग्र-णी- पावा ३, २, ६१; -णीः या ७, १४; वृदे २, २४.
अग्र-तर- -रम्^m वाश्रौ १, ३, ३, १५.
अग्र-तसः(ः) आश्रौ।
अग्रतः-पुष्कर- -राणि बौश्रौ २०, १६; ७.
अग्रतः-सर- पा ३, २, १८.
?अग्रतोपस्थान्तिके^० कौस् १४१, ४०.
अग्र-ता- -ता कौग ५, १, ६.
अग्र-त्व- -त्वम् मीस् १०, ५, ६३.
अग्र-दत्- , दुन्त- पा ५, ४, १४५.
अग्र-नाह^p- -हम् वैश्रौ ११, ७; ३.
अग्र-पश्च- -श्चात् पावा ४, ३, २३.

अग्र-पाक^१- -कस्य काश्रौ ४, ६, १; आपश्रौ ६, २९, ३; भाश्रौ ६, १५, २; १८, ५; माश्रौ १, ६, ४, २; वाश्रौ १, ५, ५, ३; हिश्रौ ३, ८, ७४^१; मागृ २, ३, ११; -केन वैश्रौ ८, १; ३.
अग्र-भाग^k- -गाम् वाध ११, ५.
अग्र-भूमि^k- -मिम् कप्र १, ४, ५.
अग्र-मध्य-मूल^१- -लानि काश्रौ ६, २, १५; द्रागृ २, १, २६.
अग्र-मृत्तिका^k- -काम् अप १, ४३, ५.
अग्रऽयण^१- > आग्रयण^१- -णः आश्रौ ६, ९, ३; शाश्रौ १४, ५, २; आपश्रौ १४, २१, ४^१; २७, ३; बौश्रौ ७, ७; ६^१; १४, २६; ४; ८; २५, १८; ४; २३; ६; ९; वाधुश्रौ ४, ७४; १६; ९३; १; ९८; १; ऋश्रौ १५, १७; १; २१, १४; ५; ७; हिश्रौ ८, ४, १८^१; १५, ५, २६^१; २७; ७, ३; अश्रय ६, ६^१; ऋश्रय १, ४२६; शुप्रा ५, ३७; -णम् आश्रौ २, ९, १; काश्रौ ९, ६, १४; १५; १०, १, १२; ५, १^१; आपश्रौ १२, ९, २; १५, ३; ७; १८, २०; १९, ५;

a) व्यु. ? । वैप १, परि. द्र. । b) उग्रम् इति पाठः ? यनि. शोधः (तु. सपा. शौ ४, १, ५) । c) पाभे. वैप १ परि. अग्रम् ऋ १०, ८५, १९ टि. द्र. । d) सकृत् पाभे. वैप १ परि. अग्ने तौ १, ५, १०, १ टि. द्र. । e) अग्ने इति पाठः ? यनि. शोधः (तु. आन.) । f) पाभे. वैप १ परि. अग्ने ऋ १०, ८५, ३८ टि. द्र. । g) पाभे. वैप १ सोमस्य शौ ६, ६८, ३ टि. द्र. । h) सपा. अग्ने गतौ <> अग्रगतौ इति पाभे. । i) तृ १ सत् वा. किवि. द्र. । j) विप. (अङ्गुलि-) । उप्त. यथायथम् <√कृ, √गम्, गल् [क्षरणो] द्र. । k) कस. । l) द्रस. । m) नाप. (ज्येष्ठ-व्रातृ-) । उप्त. उप. √ जन् + डः प्र. । n) किवि. द्र. । o) पाठः ? अग्रतः + (अव√स्था > कर्तरि) अव-स्थ- > उप्त. अग्रतोऽवस्थ- > -स्थः > स्थोऽन्तिके इति शोधः (तु. छन्दः, सप्र. अवसक्थिका- [मनुः ४, ११२]); वैतु. संस्कर्ता [भू ५९] अग्रतः, उपस्थान्तिके इतीव द्वे पदे इति ? । p) विप. (दण्डस्याऽऽयाम-) । बस. उप. भाप. <√ नह् । q) नाप. (प्रथमपक्-अज-). उप्त. उप. √पच् कर्मणि घञ्प्र., यद्वा बस. उप. भाप. । r) वैप १, परि. च द्र. ।

१३, २, १; १०, ११; १७, २;
 काठश्री १२६; १४७; काश्रौसं
 ३३: ९; बौश्री ३, १२: १; ११;
 २५; ८, २: २; १०: १२; १४;
 १०, ५९: ४; ११, ३: ९; ६: ६;
 १३: २; १२, १६: १७; १८:
 २०; १४, ८: २२; ११: २;
 २६: ३; ७; १५, १८: १८;
 २२; १२; ३२: ८; ३६: १५;
 १६, १७: ९; १७, १: ९; १९;
 २४; २४, ४: ६; ३३: ४; २५,
 २४: २; २८, ५: ७; भाश्री ६,
 १५, १; १६, १९; माश्री १,
 ६, ४, १; वाधुश्री ४, ८०: २;
 ८३: १३; ९७: ७; वैश्री ८,
 १: २; १५, १६: १०; १७:
 १; २२: ६; १६, २: ५; ६;
 १२; १२: ७; ८; १५; २०:
 ११; २१, १४: ७; द्विश्री
 ८, ४, १८; २३; ५, १९; ९,
 १, १२; १७; ३, ३१; ३४;
 ४, ४७; ७, ७; १५, ४, १३;
 द्राश्री ३, ३, १; १३, ४, १६;
 लाश्री १, १०, २५; वैताश्री ४३,
 २९; आम्रिगृ २, ५, १२: १३;
 ७, ४: २; आपगृ १९, ६; मागृ
 २, ३, १०; वैगृ १, १: ६; ६, १९:
 १०; बौध २, २, ७६; गौध ८,
 १७; -णस्य आपश्री १४, ९, ४;
 २२, २७, ६; १५; †बौश्री १३,
 ३२: १४; १८, १२: ६; १४:
 ५; २०, २२: १; २१, १७:
 २०; २५, १८: १; वैश्री १५,
 ११: ४; द्विश्री ८, ३, १; १०,
 ८, ४२; २३, ४, ३७; ३९; द्राश्री
 २, ४, १९; लाश्री १, ८, १४;

मीसू १०, ५, ८५; -णात् काश्री
 ९, २, १५; ५, १९; १२, ५,
 ३; २५, १२, २६; आपश्री १२,
 १४, ५; १३, २, २; १०,
 १२; १३, १; १४, ७; १४,
 २, ६; ७; २७, ३; ४; काठश्री
 १२६; १४७; काश्रौसं ३३:
 ७; ९; बौश्री ८, १३: २;
 ३; १४: १६; १७; ११, ३: ९;
 ६: ६; १४, ५: ३; ४; ७: १०;
 २०; ३०; ३५; १५, २२: १२;
 १६, १७: ९; १७, १: ९; १९;
 २१, २१: ४; २४, १०: ३;
 भाश्री ५, १४, १६; माश्री २,
 ५, १, ३८; वैश्री १६, १५: ५;
 १७: ७; १७, २: ६; २१, १४:
 ६; द्विश्री ९, ३, ५५; ४, १७;
 ७, २०; मीसू १०, ५, ४२; ४७;
 -णान् द्विश्री १५, ७, ३; -णानि
 बौश्री २८, ५: १०; -गे आश्री
 २, १५, १३; काश्री १५, १, १४;
 बौश्री १४, ७: ३०; वैश्री ८,
 २: १६; २१, १४: ३; वैताश्री
 ४३, ४; वैगृ ४, २: १; कौसू
 ७४, १३; मीसू ७, १, २३; -णेन
 आश्री २, ९, ३; ४; शाश्री २, ३,
 २६; काश्री २५, ८, १५; आपश्री
 ६, २९, २; बौश्री १३, ४३: १;
 २६, ११: ७; भाश्री ९, १६,
 १२; द्विश्री १५, ४, १२; मागृ
 २, ३, ९; विध ५९, ६; -णेषु
 बौश्री २७, ६: २१; -णैः बौश्री
 २८, १२: २४; २६; २८;
 ३१.

आग्रयणी^a-

आग्रयणी-दीर्घ-

मासी^b-स्याम् अप १८,
 १०, १.

आग्रयण-काल-ले आश्री
 १२, ८, २६.

आग्रयण-ग्रह^c-हम् जैश्री
 ९: २३; जैश्रीका १०४.

आग्रयण-ग्रहण^d-णम् काश्री
 १२, ६, २२; -णात् जैश्रीका
 १०२.

आग्रयण-तण्डुल^e-लान्
 कौसू २२, १०.

आग्रयण-तृतीय^f-यम्
 बौश्री ८, १६: ९; १७, ५: ८;
 २६, २२: ११.

आग्रयण-देवता^g-ताभ्यः
 शाश्री ३, १२, १७; आपश्री ६,
 ३०, १६; बौश्री २४, ३३: ५; ६;
 २८, ५: ४; भाश्री ६, १८, १३;
 वैश्री ८, २: १४; द्विश्री ३, ८,
 ६; कौगृ ३, ५, १; शांगृ ३,
 ८, १; आपगृ १९, ७; भागृ ३,
 ३: ४.

आग्रयण-ध्रुव-वर्जम्^h काठश्री
 १५४.

आग्रयण-पिण्डपितृयज्ञⁱ-
 श्रौ आम्रिगृ २, ७, २: १२.

आग्रयण-स्थाली^j-ली
 बौश्री २५, १३: १३; -लीम्
 काश्री ९, २, १०; आपश्री १२,
 १, १४; बौश्री ७, २: १२; ६:
 ५३; माश्री २, ३, १, १५; ५, १,
 १५; वाश्री ३, १, १, १३; ४, २,
 १४; वैश्री १५, २: ९; द्विश्री ८,
 १, २५; -ल्या वैश्री १५, १६:
 १०; -ल्या: द्विश्री ९, ५, १२;
 -ल्याम् काश्री ९, ४, ३६; आपश्री

a) नाप. (पौर्णमासी-). तत्रभवीयः अण् प्र. (पावा ५, १, १४) स्त्री. ङीप् च. । b) कस. पुंवद्भावाऽभावः
 (पा ६, ३, ३९)। c) कस. । d) षस. । e) त्रिप. । बस. f) पूष. द्वस. । जप. णमुलन्तम् । g) द्वस. ।

१२, ११, ५; १३, ९; १५, ४;
बौश्री ७, ५: ४६; ६: ३१; वैश्री
१५, १२: १०; १६ ३७; हिश्री
८, ३, २४; ५१; ४, २०.

आग्रयण-स्थालीपाक^१- -कः
आग्र २, २, ४.

आग्रयण-हविस्^२- -विषाम्
बौश्री २०, २२: १०; -वीषि
बौश्री १२, २: ६.

आग्रयण-होम^३- -मे वैगृ ६,
१९: ७.

आग्रयणा(ए-अ)ग्र^४- -अम्
आपश्री २१, १४, ३; ५०; २२, ८;
२२, १४, ४; बौश्री १६, १०: २;
३; १४: १९; हिश्री १६, २,
१२; १३; ७, २१; -ग्रान् आपश्री
१२, १४, १; माश्री २, ३, ५, २;
-ग्रो आपश्री २१, १४, ५; हिश्री
१६, २, १३; -ग्रेषु बौश्री २३,
११: ८.

आग्रयणे(ए-इ)ष्टि^५- -ष्टिः
वैश्री ८, १: १; हिश्री १३, ३,
२६; वैताश्री ८, ४; -ष्टिम्
आपश्री ६, ३०, १२; वैश्री ८,
२: ११; हिश्री ३, ८, ८५;
वैध २, ५, ४; -ष्टी निसू २, ५:
१८; २१; -ष्टी हिश्री ६, ८, १;
-ष्ट्या हिश्री ३, ८, ७०.

आग्रयणेष्टि-पशु-चातुर्मा-
स्था(स्य-अ)ध्वर^६- -राणाम्
आग्रिगृ ३, ९, ३: १७; बौपि २,

७, १६.

आग्रयणे(ए-उ) कथ्य^७-
-कथ्यौ काश्री १२, ५, १; आपश्री
२०, १३, २; हिश्री १४, ३, ८.

आग्रयणे(ए-उ) कथ्या
(थ्य-आ) दित्य-ध्रुव-स्थाली^१-
-लीभ्यः वैश्री १६, २३: १.

अग्र-वचन^८- -नात् मीसू १०, ५,
६२.

अग्र-वत्- -वन्तौ वैश्री ३, ६: ५.

अग्रवती^९- -ती बौश्री १३, २७:
६; १०.

अग्र-शब्द- -ब्दः मीसू १०, ५,
६७.

अग्र-संयोग^{१०}- -गात् मीसू १०, ५,
६६.

अग्र-संपादिन्- -दिनः या ६, १६.

अग्र-सारि(न् >)णी^{११}- -ण्यः या
३, ८.

अग्र-स्तोम^{१२}- -मः निसू ७, १: ६;
१०, १३: १७.

अग्र-हाय(न >)ण^{१३}-

आग्रहायण^{१४}- पावा ५, ४, ३६;
-णम् द्रागृ ३, ३, १६^१.

आग्रहायणी^{१५}- पाग ४,
१, ४१; -णी कप्र २, ६, ६; गौध
८, १६; -णीम् पागृ २, १६, ५;
हियृ २, १७, १; कप्र ३, ९, ११;
-ण्या विध ७३, ८; -ण्याः कौगृ
३, १५, १; शांगृ ३, १२, १; पागृ
२, १४, २२; ३, ३, १; कागृ ६१,

२; मागृ २, ८, २; गोगृ ३, ७,
२३; १०, ७; जैगृ २, ३: १;
द्रागृ ३, २, १३; ३, २७; -ण्याम्
शाश्री ३, १५, २; कौगृ ४, ४,
१; शांगृ ४, १७, १; कागृ ६०,
१; भागृ २, २: १; मागृ २, ७,
१; गोगृ ३, ९, १; कौसू १०,
२२; २४, २४; कप्र ३, ९, १५.

आग्रहायण्य(पी-अ)श्वत्थ-
-श्यात् पा ४, २, २२.

°आग्रहायण-, °आग्रहायणि-
पा ५, ४, ११०.

आग्रहायणक-, १आग्र-
हायणिक- पा ४, ३, ५०^{१६}.

२आग्रहायणिक^{१७}- पा ४,
२, २२.

३आग्रहायणिक^{१८}- -कम्
कप्र ३, ९, १२.

अग्रा(प्र-आ)ख्या^{१९}- -ख्यायाम् पा
५, ४, ९३.

५अग्रा(प्र-अ)ग्र^{२०}- -अम् वैगृ ५, ४:
२५.

२अग्रा(प्र-अग्र >)ग्रा^{२१}- -ग्राः
आपश्री १, १५, १२; हिश्री १,
४, ३२.

?अग्राचरणात्^{२२} बौश्री २०, २६:
३५; ३६.

अग्रा(प्र-आ)दि- -दिषु पावा ३, ४,
२४; शौच २, ८५.

अग्रा(प्र-अ)न्त^{२३}- -न्तम् वैश्री १०,
२: ४^१; ११, ७: ५.

- a) षस. । b) विप. । बस. । c) सपा. आग्रय^{२४} <> आग्राय^{२५} इति पाभे. । d) द्वस. > कस. ।
e) द्वस. । f) द्वस. > षस. । g) वि. (याज्यानुवाक्या-). । h) विप. (अह्गुलि-). । उस. । i) व्यु. अर्थश्च ? ।
j) नाप. (मार्गशीर्ष-मास-). । बस. । k) स्वार्थे अण् प्र. । l) विप. (कर्मन्-). । तत्रभवीयः अण् प्र. । m) विप.
(अमावास्या-, रात्रि- प्रभृ.), नाप. (पौर्णमासी- प्रभृ.). । n) देयमृणीयौ बुज्-उञ्जौ प्र. यथाकर्म द्व. ।
o) सास्मिन्पौर्णमासीयः ठक् प्र. । p) तत्रभवीयः ठक् प्र. (पा ४, ३, ११) । q) नाप. (शिरोऽप्रभाग-). । षस. ।
r) विप. (सुच्-). । बस. उप. =मुख- । s) पाठः ? अग्रस्य, आ (कप्र.), चरणात् इति त्रि-पदः पाठः इति
भवस्वामी । t) वा. क्वि. ।

अग्रान्त-शुद्ध-शुभ-वृष-वराह^a-
-हेभ्यः पा ५,४,१४५.

अग्रा(प्र-अ)य(न>)ण^b-

१ आग्रायण^b- पावा ५, ४, ३६;
-णः माश्रौ २,३,५, ९; ३, ६,
१७; ५,२,७,३; काश्रौ ३,२,३,
३३; अप्राय ६,३; -णम् काश्रौ
४,६,१; आपश्रौ ९,१४, ५; ६;
माश्रौ २,३,५, ९; ७,४; ४, ४,
१०; ५,१, १६; वाश्रौ ३,१, १,
१६; २, २, ४०; -णस्य माश्रौ
५,१, ७, २८; -णात् माश्रौ २,
५,१,१८; २,१०; ४, २; ३, ६,
१७; अप्राय ६, ३^c; -णे काश्रौ
४,५,२; बौश्रौ २०, २२; १२;
वाश्रौ ३,२,१,२७; -णेन वाश्रौ
१,५,५,४; बौश्रौ ४,११,१.

आग्रायण-देवता^c- -ताभ्यः
पाग ३,१,३; काग ५३,३.

आग्रायण-स्थाली^c- -ल्याम्
माश्रौ २, ३, ३, २०; ५,९; ४,
४,१०.

आग्रायणा(ण-अ)ग्र^d- -ग्रम्
वाश्रौ ३,२, २,३९^e; -ग्रे वाश्रौ
३,२,२,४०^d.

आग्रायणे(ण-इ)ष्टि^c- -ष्टिः
वैश्र १,१ : ८; -ष्टिम् हिश्रौ ३,
८,७२.

अग्रा(प्र-आ)सन- -नम् शोध ९१.

अग्रासन-स्थ^f- -स्थः शोध ९१.

अग्रिम^b- पावा ४, ३, २३; -मः
कप्र २,९,२; नाशि २,२,१८.

अग्रिय,या^b- पा ४,४,११७; -यः

आश्रौ ४, ६, ३; बौश्रौ ९, ८ :
१५; वैश्रौ १३,१०:१५; लुस १,
२ : ३; ८ : ४; २, ४ : ४; ६; ५ :
३; ५; निसू ३, ३ : २०; काग ७
४० : ५; कौसू ८९, ६; -यम्
आश्रौ १, १०, ५; २,१५,१३^g;
बौश्रौ १३, ३६ : ९; हिश्रौ २१,
२,६७; बौश्र २,५,७^h; -यम्-
यम् आश्रौ २, ३, १३; -या
निघ ४, ३; या ऋ १६, १६^h;
-याय तैप्रा ११,१४^h.

अग्रिय-वत्- -वत् निसू ३, ३:१४.

अग्रियवती- -ती लाश्रौ ४,
५,१९ⁱ; ७,१ⁱ; लुसू १,१ : ११;
४ : २०; २,१ : ३; १२; १५ :
१२; निसू ३, ३ : १४; १५;
२४; ४, १३ : १६; ५, ८ : १९.

अग्रीय- पा ४,४,११७.

अग्रे-ग^b- -ग बौश्रौ २८,२ : ३२;
-गः निसू ७,८ : ३४; ३६.

अग्रे-गा^b- -गाः आश्रौ ४, १३,
२; ५,१०,४; शाश्रौ ७, १०,९;
आपश्रौ १२, १७, ४; बौश्रौ ४,
४ : १७; ७,८:५; १४,५ : ४२;
भाश्रौ ७, ७, १६; माश्रौ २, ३,
६,४; वाधूश्रौ ४,९७ : १४; १७;
२०; वैश्रौ १५, १९ : ४; १६,
२ : १४; १२; १९; काग ८,६;
४९,१; -गाम् आश्रौ ५,५,३.

अग्रे-(गु>)गृ^b- पाउ २, ६८;
-गुवः बौश्रौ १,६ : ४; १३ : २,
माश्रौ १, २,३,२५; वाश्रौ १,२,
२, १०; ३,१,२४; शुप्रा ४,८५.

अग्रे-णी^b- -णीः काश्रौ ६,२,१९;
शुश्र १,३६७.

अग्रे-दिधि(सु>)षू^b- -षूः वाध १,
१८.

अग्रेदिधिषू-पति^c- -तिः वाध
२०,९.

अग्रे-पू^b- -पुवः आपश्रौ १,
११,१०; बौश्रौ १, ६ : ४; १३ :
२; भाश्रौ १, ११, १३; २, ७,
१२; तैप्रा ११,१६.

अग्रे-प्रथम-पूर्व^a- -र्वेषु पा ३,४,
२४.

अग्रे-वण- पा ८,४,४; पाग २,३१

अग्रे-सर^l- पा ३, २, १८; -रम्
वृदे ६,५२.

अग्रे(प्र-उ)स्सर्ग-> ^oगप्रसव-वृद्धि-
कर्षा(र्ष-आ)पण-शुल्क-नदीती-
(?त)र^a- -रेषु शोध १२.

अग्रे-इया^b- पा ४, ४,११६; पाग
५,३,१०३; -इयम् पाग २, २,
११; १३, ६^h; अप ३, २५, ३;
शैशि ६९^h; -इयस्य काग ५४,
१; -इया वृदे २, ७७; -इयाम्
अप ३१,६,५.

अग्रे-व(त>)ती- -तीⁱ द्राश्रौ
८,१,२०; ३,१.

२अग्र^l- पाग ४,१,९९.

२आग्रायण- पा ४, १, ९९; -णः
अप्राय ६,३; या १,९^g; ६,१३;
१०, ८^m; -णाः बौश्रौ २३:३;
४१:३.

अग्र-कारिणी- प्रभू. १अग्र-द्र.

अ-ग्रन्थⁿ- -थे अप्रा १, २, १०; पा

a) द्रस. । b) वैप १, परि. च द्र. । c) षप. । d) त्रिप. । बस. । e) पाभे. पृ ५१

b टि. द्र. । f) विप. । उस. काऽन्तम् । g) अइयम् इति भाष्यसंमतः पाठः । h) सपा. अग्रियम् <>

अइयम् इति पाभे. । i) सपा. अग्रियं <> अग्रयं इति पाभे. । j) त्रिप. । उस. । k) द्रस. ।

l) व्यप. (ऋषि-विशेष-) । व्यु. ? । m) तु. सा । ऋ १, १५६, ५, स्क. दु. च; वैतु. ल. अग्र इति ? ।

n) तस. ।

१,३,७५.
 अ-ग्रन्थि^a- -न्थि वाश्रौ १,२,२,६.
 अग्रन्थि-ता- -ता अप्राय २,९.
 अग्र-पद्व- प्रभृ. १अप्र- द्र.
 अ-ग्रस्त- -स्तम् लाश्रौ ६,१०,१८.
 अग्र-स्तोम- १अप्र- द्र.
 अ-ग्रह^b- -हाः आपश्रौ १४,१५, ३;
 हिश्रौ १०,७,२५.
 अ-ग्रहण^c- -णम् काश्रौ ५, ८, १९;
 ८, ६, २७; द्राश्रौ १,४,१६; २३;
 २५; लाश्रौ १,४,१२; १८; १९;
 पाप्रवा ४,११; पावा १,१,२३^३;
 २,२०; ३,३,११८; ६,१,१२३;
 -णस्य पावा ३, १, ३; -णात्
 मीस् ३, २ ३१; १०, ७, ३०;
 ८, १८; -णे पावा ६, ४, १६;
 ७, २, ३७.
 अग्रहणा(रा-अ)र्थ- -र्थम् पावा १,
 २,४१.
 अ-ग्रहा(ह-आ)दि^d- -दीनाम् पावा
 ७,२,९.
 अग्र-हायण- प्रभृ. १अप्र- द्र.
 अ-ग्राम^e- -माः पा २,४,७.
 अ-ग्रामणी-पूर्व^f- -र्वात् पा ५, ३,
 ११२.
 अ-ग्राम्य^g- -म्यम् अप ७०^२, ६, ३.
 अग्राम्य-भोजिन्^h- -जी बौध २, ६,
 १७; गौध ३, २८.
 अग्राम्य-शूकरⁱ- -रे वाध १४, ४७.
 अग्रायण- प्रभृ. १अप्र- द्र.
 अ-ग्राह्य^j- -ह्यौ वैश्रौ १५, ११; ३.

अग्रिम-, अग्रिय-, अग्रीय- १अप्र- द्र.
 अग्रि, घृ^k- -मवः आश्रौ ३, ८, १;
 आपश्रौ ५, ११, ६; बौश्रौ २, १६;
 ३६; वाश्रौ १, ४, २, १६; हिश्रौ
 ३, ३, ४; अप ४८, ८२^३; निघ
 १, १३; २, ५; या ३, २०.

अग्रे-ग- प्रभृ. १अप्र- द्र.

अ-ग्लानि^l- -निः हिध १, १, ९५^१.

अ-ग्लास्तु^m- -स्तुः आपघ १, ३,
 २२^१क.

✓अघⁿ

अघ^o- पाग ५, २, १२७^m; -नीघम्
 शांश्रौ ४, २, ९; काश्रौ २१, ४,
 २२; आपश्रौ १४, २२, १; २;
 बौश्रौ १४, २७; १७; आपमं १,
 ४, ७; ११; २, १३, ३; ४; आग्य
 १, १३, ६; ७; ४, ६, १८; कौग्य ४,
 ४, ६; ५, ८, ५; शांग्य ४, १७, ५;
 पाग्य १, ५, ११; ३, १०, १९;
 आग्य १, ५, २ : ५१; ३ : ३;
 २, १, ३ : २९; ३१; ३, ४, ३ :
 १; ५, ३ : ४^३; ६^३; ७, १ :
 १५^३; १६; काग्य २८, ४; बौग्य
 १, ४, २०; २३; बौपि १, ३ :
 ४^३; १७ : १४; १५; भाग्य १,
 १४ : ३; ११; २५ : ७; वाग्य
 २, ६; हिग्य १, १९, ७^३; २, ३,
 ८^३; हिपि २ : १५; १६; ११ :
 ६; जैग्य १, २० : ७; २८; कौस्य
 २, २; कौग्य ८३, ५-७; ८५, १३;
 १४^३; १५; १६; २०; २२;

८६, ९; १२; १४; अप्राय २, ६^३;
 अप ३२, १, ६; १८; २६; विघ
 ६७, ४३; शुअ ४, ५०; अअ
 १२, ५(४); अपं २ : ३६; या
 ६, ११^३; अप्रा ३, ४, १;
 -घस्य अप ४८, ६३; या ६, ११;
 भाशि ३८^३; -घा^३आमिग्यⁿ ३,
 ७, २ : १२; १३; ८, ३ : ३२;
 ३३; बौपि १, १६; १८-२०; १७ :
 ३१; ३२; या ९, ४२^३; -नीघानि
 आमिग्य ३, ५, ६ : २; बौपि १,
 ४ : १९; या ९, ४२; -नीघाय
 आग्य २, १, ६; माग्य २, १६, ३;
 कौस्य ७६, २७; -वेषु कौग्य ३,
 ९, ६^०.

अघ-(हन् >)घ्नी^p- -घ्नी या ११,
 ४३.

नीघ-द्वि(घ >)घा^q- -घा कौस्य
 २६, ३३; अप ३२, १, १८; २४;
 ४२, १, ७; अशां १९, १; अअ
 २, ७.

अघ-नाशि(न् >)नी^r- -नी शुअ
 ३, ४८.

अघ-मर्षण^s- -णः अप ४३, ४,
 ५^३; ऋअ २, १०, १९०; बुदे ८,
 ९१; -णम् वैग्य १, ३ : १३; ६,
 ८ : ५; वैध २, ८, २; १३, २;
 कप्र २, १, ९; वाध २२, ९; २३,
 १९; २३; २६, ८; २८, ११;
 शंघ १०३; १०५; बौध ३, ५,
 ३; १०, ११; ४, २, ७; १५; ३, ७;

a) विप. (पवित्र-) । बस. । b) विप. । बस. उप. = सोम-ग्रह- । c) तस. । d) तस.
 उप. बस. । e) बस. । f) विप. । उस. । g) कस. । - h) व्यु. संप्रदायैकदेशमात्रं वैप १ द्र., विशेषस्तु
 वैश. द्र. । i) विप. । बस. । j) सश्रु. अग्लानिः <> अग्लास्तुः इति पामे. । k) ञलां इति पाठः ?
 यनि. शोधः । l) वैप १, परि. च द्र. । m) सप्र. अघ (भागडा. पत्ति.) <> अअ (पाका.) इति पामे. ।
 n) षाद् द्वे° इति पाठः ? लैवि. सन् यनि. शोध्यः (तु. बौपि.) । o) सप्र. अघेषु च सूतकेषु च <>
 अघसूतकेषु च इति पामे. । p) विप. (अचया-) । उस. । q) व्यप. (ऋषि-विशेष-), नाप.
 (तद्दृष्ट-सूक्तविशेष-) ।

४,२; विघ २२, १०; ६३; ४६,
५; ९; ५१, २५; ५५, ७; ५६,
३; ६४, १९; ७३, २२; गौघ १२,
१३; २४, १२; सुधप ८६: ९;
१०; ८७: ३; ४; अप ४२,
२, १; २; गौघ २४, १४;
बुदे ८, ९३; -णस्य बौघ
३, ५, १; -णाः^३ आपश्रौ २४, ९,
१२; बौश्रौप्र ३८: १; हिश्रौ २१,
३, १२; -णात् शंघ १०६;
-णानाम्^३ आश्रौ १२, १४, ६;
-णेन आमिगृ १, २, २: २-३;
२, ६, २: २३; बौगृ ३, ३, ५;
९, ३; भागृ ३, ९: १; हियृ २,
१८, ९; बौघ २, ५, १२; १०,
३२; ३, ४, ७; विघ ५५, ४.

आघमर्षण^३- -ण
आश्रौ १२, १४, ६; आपश्रौ २४,
९, १२; बौश्रौप्र ३८: २; हिश्रौ
२१, ३, १२; वैघ ४, १, १०.

अघमर्षण-सूक्त^३- -क्तस्य शंघ
१०३; -क्तेन वैगृ ६, ८: ५;
वैघ २, ८, २; १३, २.

अघमर्षणसूक्त-जप^३- -पः
कागृ ४२: २.

अघमर्षण-कौषिक- -कानाम्
वैघ ४, १, १०.

अघमर्षण-वत् आपश्रौ २४,
९, १३; बौश्रौप्र ३८: २; हिश्रौ
२१, ३, १८; वैघ ४, १, १०.

अघ-ल^३- -ला: अप्रा ३, ४, १.
अघ-वत्- -वान् आमिगृ २, ७,
६: ९.

अघ-वि(ष>)वा^३- -वा अत्र
१२, ५(३).

अघ-शंस^३- -स: आपश्रौ
१, १२, १; १७, १०; २, २, २;
६, १७, १०; १४, ३०, ४; बौश्रौ
१, १: १३; माश्रौ १, १२, २;
६, ४, ४; वाश्रौ १, २, ४, ४७; ३,
१, ४२; वैश्रौ ४, १२: २; हिश्रौ
१, ५, ४८; ६, ८२; ६, ६, १६; १५,
७, १९; अप ४६, ३, ३; ४८, ८३;
निघ ३, २४; या १०, ४२; तैप्रा
११, १३; -सम् शाश्रौ ८, १८,
१; या ६, ११४; -सात् बौश्रौ
३, १८: २३; २०, २४: २८;
माश्रौ १, ४, २, ८; वाश्रौ १, १,
३, ८.

अघशंस-दुःशंस^३- -साम्याम्
अत्र १२, २१.

२अघ-शंस^३- -स: शुअ १, ८६.

अघ-सूक्त^३- -केषु शागृ ४, ७,
६^३.

अघ-स्वन^३- -न: अप ७०^२,
१९, ६.

अघाय पा ७, ४, ३७.

अघायत्- -यत: आपश्रौ
६, १७, ८; या ५, २३; शुप्रा ३,
११२; -यताम् कौसू ६५, १;

अत्र १०, १२; अपं ४: २८;
-यते ऋप्रा ९, १६.

अघायु^३- -यव: आपश्रौ
२१, १२, ३^३; बौश्रौ ६,
१६: ७; आपमं २, १५, ३;
आगृ २, ८, १६; कौगृ ३, २,
६; शागृ ३, ३, १; आमिगृ ३,
८, ३: ५; मागृ २, ११, १२^३;
बौपि १, १५: ७७; तैप्रा ३, २;
-यु: आपश्रौ १७, ९, ६; बौश्रौ
१०, २४: २; वैश्रौ १८, १४: ४२;
४४; १५: १; १२, ६: ९; कौसू ४२,
७; अपं १: ११; -यूनाम् आश्रौ
५, ३, २२; -यो: अप्रा ३, ३, ६.

अघा(घ-आ) रि(न् >)णी^३-
-णी: अप्रा ३, ४, १.

अघा(घ-अ)इ^३- -हेषु आमिगृ ३,
१०, ३: ५.

अघा(घ-अ)इत्^३- -हानि शाश्रौ
४, १५, ७; कौगृ ५, ४, १०.

अघो(घ-उ)दक^३- -कम् आमिगृ
३, ६, २: ६; ७, ३: ३०; बौपि
१, ९: १६^३; २, ३, २.

अघ-घनी- प्रभृ. ✓अघृ द.

अ-घट्टित^३- -ता: अप ७१, १५, ६.

अघ-नाशिनी- प्रभृ. ✓अघृ द.

अ-घनोत्थि(त>) ता^३- -ताम् अप
७०^३, ३२, १०.

अघा^३- -वासु बुदे २, ११६^०.

अघाक्षः^३ कौसू १३७, ४१.

a) बहु. < आघमर्षण-। b) अपत्ये अण प्र. (पा ४, १, ११४)। c) कस.। d) षस.।
e) वैप १, परि. च द्र.। f) द्वस.। g) व्यप. (ऋषि-विशेष-। व्यु. ?। h) पामे. पृ ५३० टि. द्र.। i) विप.।
उस. वा बस. वा। j) पाठः ? अघायत्- > -यतः (द्वि३) इति शोधः (वैतु. C. शसः स्थाने जस् इति वा,
अघायु- > ✓*अघायु > लङि प्रपु १ रूपमिति वा ?)। सपा. हिश्रौ ?अघाश(य)वः इत्यत्र टि. अपि द्र.।
k) मात्वा प्रापन् अघायवः इत्येव पाठः समुचितः (तु. सपा. आगृ. कौगृ. शागृ.; वैतु. BC. Knauer अघा^३ इति
पामे.)। l) षस. उप. समासान्तषु टन् प्र. वैकल्पिकः उंसं. (पा ५, ४, ९१)। m) तु. संस्कर्ता [भू १२]।
n) तस.। o) पामे. वैप १ परि. द्र.। p) संस्कर्तुः अघ- > -वात् नः इतीत्र द्वि-पदः पाठः ? अघ, अहन्-
> -ः इति शोधः (तु. तै ३, २, ४, ४)।

अघाश(य)वः^a हिश्रौ १६,४,३५.
 अ-घूर्ण^b- -र्णम् आपश्रौ ७, १,
 १७.
 अ-घृणि^c- -णिः^d आमिगृ ३, ५, ४ :
 १०; बौपि १,३ : २०.
 अ-घृत-लि(स>)सा^e- -सानाम्
 हिश्रौ ८,१,६८.
 अ-घृष्ट^f- -ष्टः हिश्रौ ४,३,१.
 अ-घोर, रा^g- -वृदे ७, १३७; -०र
 वैश्रौ १८,१८:१^h; -रः आश्रौ ३,
 १४,१३; आपश्रौ ९, १६,११;
 १६, २५, २६; बौश्रौ २७, ४ :
 १५; भाश्रौ ९,१९,८; हिश्रौ ११,
 ७, ४२ⁱ; १५, ४, ४९; अप्राय
 ४,२; अप ३७,१,६; -रा आश्रौ
 ४,१२,२; -राः मागृ १,१२,३;
 -रान् मागृ १, १२, ४; -राय
 आमिगृ १,१, ३:४३; बौगृ २,
 १, १८; हिगृ १, ६, ५; कौसू
 ५६, १३; अप ३६, ९, ७; -रे
 अप ३५, १, १; -रेण आपश्रौ
 १६,१६,४; वैश्रौ १८,१४:१३;
 हिश्रौ ११, ६, १४; आपमं १,
 ७, १०; कागृ २६, ६; २७, ३;
 -रेभ्यः अप ४०,३,३.
 अघोर-कर्म-का(रक>)रिका^h-
 -०के अप ३५, १, १.
 अघोर-घोरतर- -रेभ्यः अप ४०,
 ३,३^h.
 अ-घोर-चक्षुस्ⁱ- -क्षुः आपमं १,
 १, ४; कौगृ १,१०,६; शांगृ १,
 १६, ५; पागृ १,४,१६; आमिगृ
 १,५,३:१०; बौगृ १, १, २५;

मागृ १, १५:११; मागृ १,
 १०, ६; वागृ १४, ३; वैगृ ३,
 ३:७; १०; हिगृ १, २०, २;
 जैगृ १, २१:८; कौसू ७७,२२;
 ऋअ २,१०,८५.
 अ-घोष^j- -षः अप ४७, १,१६; तैप्रा
 १४,१८; अप्रा २, ३, ४; आशि
 ८, १४; -षाः अप ४७,१,१७;
 ऋप्रा १,११; तैप्रा १,१२; शौच
 २,३; शाशि २४; याशि २, ९४^k;
 आशि ४,२; -षाणाम् ऋप्रा १३,
 ४; -षात् ऋप्रा ६,४०; १४,३४;
 तैप्रा १४, ९; -षान् ऋप्रा १४,
 ३९; -षे ऋप्रा ४,११; ३१; १०,
 २२; २३; तैप्रा १४, १०; ऋत
 ३, ७, १०; ४, ५, २; शौच २,
 २५; ४०; -षेषु ऋप्रा ४, ३९;
 ११,४१; तैप्रा २,१०; शौच १,
 १२; २, ४; २६; -षौ ऋप्रा १,
 १२.
 अघोष-ता- -ता आशि ८, १५;
 २६.
 अघोष-स्व- -स्वम् शैशि ३४३.
 अघोष-निभ-ता- -ता ऋप्रा १४,
 २८.
 अघोष-पर- -रः तैप्रा ९,१;२.
 अघोष-वत्- -वन्तः उसू १,७.
 अघोषवत्-पर^l- -रेषु उसू ६,१.
 अघोषिन्- -विभिः ऋप्रा १२,१२.
 अघोषो(ष-उ)व्य^m- -ये ऋप्रा ४,
 ३६.
 अघोषो(ष-उ)व्य-परⁿ- -रे ऋप्रा
 ४,१६.

अ-घ्नत्- -घ्नता बौगृ २, २, ८^o;
 -घ्नन् गौघ १२,४२.
 अ-घ्निय,या^p- -याः बौश्रौ ४,११:
 ३; बौपि १,१५:१८; -०याः
 आपश्रौ १, २, ६; ९, १८, १५;
 १६, १९, ८; बौश्रौ १,१:१२;
 २८,७:१०; भाश्रौ १, २, १५;
 ८,१,११; वैश्रौ १८, १६:१६;
 हिश्रौ ११, ६, ४१; आमिगृ ३,
 ८,२:१२; बौपि १,१५:२२;
 हिपि १५:९; -वानाम् बौश्रौ
 १४, १४:७; -याम् आपश्रौ
 १, १२, ८; हिश्रौ १, ३, २९;
 -यासु आपश्रौ ९, ५, ६^q; बौश्रौ
 ६, १५:२४; १४, २३:१४;
 भाश्रौ ९,७,४; हिश्रौ १५,२, ५;
 -०ये बौश्रौ १६, २६:१५;
 भाश्रौ ११, १२, ३; तैप्रा ११,
 १७.
 अ-घ्न्य,घ्न्या^r- -पाठ ४,११२; -घ्न्यः
 ऋप्रा ३,६,५; अप १६, १, १२;
 -घ्न्या अप ४८, ९२^s; १३९;
 वृदे १,१२८; २, ७८; ८, १२५;
 निघ २, ११; ५, ५; या ११,
 ४३९; ४५; -०घ्न्याः आश्रौ ३,
 ६, २४; शाश्रौ ८, १२, ११^t;
 माश्रौ ११, १, १९; ७,१,८;
 ६,१,५,४२; ऋश्रौ १,२,१,७;
 २,१,५,६; द्राश्रौ १३, ३,२२^u;
 लाश्रौ ५,४,६^v; अप ४६,३,३;
 साअ २,८६२; -घ्न्यायाम् आश्रौ
 ३, ११,७^w; -घ्न्यासु माश्रौ
 ३, २, २^x; -०घ्न्ये काश्रौ

a) *घा^o इति पाठः? *अघस्- (=अघ-) > √ *अघस्य > *अघस्यत्- > -स्यतः इति शोषः
 (तु. पृ ५४j टि.)। b) तस.। c) आ-घृणि->नैप्र. यनि. (तु. वैप १)। d) पामि. वैप १, ६२८ i टि.,
 परि. च द्र.। e) विप.। तस. उप. तुस.। f) वैप १, परि. च द्र.। g) पामि. वैप १ परि अखिद्राः काठ
 ३९, ३ टि. द्र.। h) विप.। कस. > षस.। i) नाप. (पारिभाषिकशब्द-विशेष-)। तस.। j) बघ.।
 k) दस. > बस.। l) पामि. वैप २, ३ खं. अमियासु तैप्रा १,४,३,३ टि. द्र.।

२५, १, १८; आपश्चौ ९, ५, ४;
१५, १२, ३; वैश्रौ १३, १४ : १५;
हिश्रौ १५, २, ३; २४, ५, ५;
कागृ २४, १९; कौस् ८०, ३७;
८१, २०; अअ १२, ५(६); १८,
३; या ११, ४४.
आध्याय- -ध्यायम् अत्र ६, ७; ७,
७५.

अध्याय-स्तुति- -तिः अत्र ७, ७५.

अध्याय-मद्य- -द्ययोः विध ३८, २.

√अङ्क् (बधा.), पाधा. भ्वा. आत्म.
लक्षणे, चुरा. उभ. पदे लक्षणे च;
अङ्कयेत् विध ८६, ९.

अङ्क^b - ङ्कम् वैगृ ३, २२ : ८; कौस्
१८, १६; -ङ्कात् बौगृ १, ५, २०;
-ङ्के काश्रौ १०, ९, ९; पागृ १,
१६, २४; २, १, ५; आपगृ ६,
११; वैगृ ३, १५ : १३; हिपि
१८ : २५; कौस् १८, १६; -ङ्केन
जैगृ १, ९ : ३; कौस् १८, १७;
-ङ्कौ^d आपश्चौ १८, ४, ६; २२,
२६, १७; २८, १८; बौश्रौ ११,
७ : २६; १८, १० : १९; १७ :
१९; वाश्रौ ३, १, २, १; वैश्रौ
१७, १२ : १०; हिश्रौ १३, १,
४४; २३, ४, ३१; ५७; आपमं
२, २१, १७; पागृ ३, १४, ६;
भागृ २, २९ : ४; वागृ १५, १;
हिगृ १, १२, २.

अङ्क-करण^e - ङम् शंध २६१.

अङ्क-गत^f - -तः कौगृ १, १८, २.

अङ्क-देश^g - -शोन आश्रौ १, ३,
२६.

अङ्क-धारणा^h - -णा आश्रौ १,
१, ९.

अङ्क-न्यङ्क - -ङ्कौ कागृ २६, २^d५.

अङ्क-लक्षणⁱ - -णानि शांगृ ३,
१०, १.

अङ्क-वत् पा ४, ३, ८०; पावा ४,
२, ८.

अङ्क-संमित^j - -तौ आश्रौ १, १,
२३.

अङ्का(ङ्क-अ)ङ्क^b - -ङ्कम् शुपा
४, ८६.

†अङ्कान्यङ्कु - -ङ्कु^d द्राश्रौ
५, ४, ६; लाश्रौ २, ८, ९.

अङ्कन, ना^b - -नाः या ३, ८; १७.

अङ्कयित्वा वैश्रौ १, १ : १३; बौध
१, १०, १८.

अङ्कस्^b - पाउ ४, २१६; -ङ्कः,
-ङ्कांसि या २, २८६.

अङ्कित - -तम् विध ८६, ११; या
५, १७.

अङ्कु^b - -ङ्कु मागृ १, १३, ४^d.

अङ्कु-प^b - -पम् शुपा ४, ८६.

अङ्कुर^l - पाउ १, ३८; पाग ५, २,
३६; -राः पागृ ३, १५, २०†^j.

अङ्कुरित - पा ५, २, ३६.

१अङ्कुश^k - पाउ ४, १०७; पाग
२, ४, ३१; -†शः आश्रौ ३,
१३, १४; शांगृ ३, १, ११; अत्र

४६, ६, १; अत्रा ३, ४, १; या ५,

२८^३६; -शात् या ५, २८.

अङ्कुश-ग्रह^l - पावा ३, २, ९.

अङ्कुशा-क(र्ण)गी^m - -र्णी
ऋत ५, १, ३.

√अङ्क्य > †अङ्क्यत् -
-यन्तम् ऋपा ९, १६.

†अङ्कतⁿ - -तान् आमिगृ २, ४, ८;
९; -तेभ्यः आमिगृ २, ४, ८ : ४.

अङ्कति (> ^oती-पा.)^o पाउ ४, ६१;
पाग ४, १, ४५.

२अङ्कुश^o (> आङ्कुशायन^p-पा.)
पाग ४, २, ८०.

?अङ्कूप^q - पाउवृ ४, ७६.

अङ्कुत्वा √अङ्कु द्र.

√अङ्ग् (बधा.) भ्वा. पर. गतौ,
चुरा. उभ. पदे लक्षणे च।

अङ्गन - -नात् या ४, ३.

†अङ्ग^r आश्रौ.

अङ्ग-युक्त - -क्तम् पा ८, २, ९६.

१अङ्ग^s - पाग ५, २, १००; -ङ्गम् काश्रौ;
-ङ्गस्य गौध; -ङ्गा वैताश्रौ २४,
१; अत्र १२, ५ (५, ७)†ⁿ;

-ङ्गात् हिश्रौ; -†ङ्गात्-ङ्गात्
आपमं १, १७, ६†; -ङ्गान्

हिश्रौ ४, १, २५; वैध १, १०, ९;
-ङ्गानाम् आपश्चौ; -ङ्गानि आश्रौ;

-ङ्गे माश्रौ; -ङ्गेऽङ्गे आपश्चौ;
-ङ्गेन आश्रौ; -ङ्गेभ्यः आपश्चौ;

-ङ्गेषु काश्रौ; -†ङ्गैः काश्रौ
६, १, ३३^d.

आङ्ग^t - > आङ्ग-शास्त्रा(ख-अ)-

a) द्रस. पूष. तस. । अपे इति जीसं. । b) वैप १, परि. च द्र. । c) अङ्गात् इति पाठः? यनि.

शोधः । d) पाभे. वैप १, १८६८ j टि. द्र. । e) षस. । f) विप. । द्वितीयासमासः । g) विप. । तुस. ।

h) विप., नाप. च । i) नाप. । j) सपा. आपमं १, १३, ७ विभे. k) नाप. । कृद्वृत्तिः द्र. (तु. पपा.

अनवग्रहः) । या. < √अञ्च् इति वा आ√कुच् इति वा । l) विप. । उस. । m) बस. पूष. दीर्घः । n) नाप.

(वायस-विशेष-). व्यु. ? । o) अर्थः व्यु. च ? । p) देश-विशेष-? । q) संबुद्धयार्थे अव्य. । वा. क्रिवि. ।

r) पाभे. वैप १ परि. अङ्गे-अङ्गे शौ २, ३३, ७ टि. द्र. । s) पाभे. वैप २, ३खं अङ्गैः माश ११, ७, २, ६ टि. द्र. ।

t) इदमर्थे अण् प्र. ।

तिदेश- -शात् पावा ६, ४, ६२.
 अङ्ग° पावा ४, १, १.
 अङ्ग-काम- -मम् निस् २, ४: ५;
 -मा: निस् २, ४: १; -मै: मीस्
 ४, ३, २३.
 अङ्ग-गुण-विरोध^०- -धे मीस् १२,
 २, २५.
 अङ्ग-चल^०- -ले बौगृ ३, ५, १३.
 अङ्ग-च्छेद^०- -द: शंध ३१६; ३१८;
 ३१९; ३२५; ३२६.
 अङ्ग-तस् (:) आपश्रौ ७, १२, २;
 पावा ४, १, ३६.
 अङ्ग-स्व- -स्वात् काश्रौ ४, १, २८;
 -स्वेन मीस् ४, ४, ३०.
 अङ्ग-द^० > अङ्गदिन्^०- -दिनम्
 विध ९७, १०.
 अङ्ग-दोष^०- -वात् निस् २, ४: १५.
 अङ्ग-धर्म^०- -र्मा: निस् २, ४: १६.
 अङ्ग-नख-वादन^०- -नम् वाध ६,
 ३३.
 अङ्ग-(न>)ना- पा ५, २, १००;
 -ना अप ४८, ८६.
 अङ्ग-पर- -र: ऋत ४, ५, ६.
 अङ्ग-परिमाण(ण-अ)र्थ- -र्थम् पावा
 ३, ७, ८.
 अङ्ग-प्रत्यय-संज्ञा(ज्ञा-अ)भाव-
 -वात् पावा ६, ४, १.
 अङ्ग-प्रधान-भेद^०- -दात् काश्रौ १,
 २, १८.
 अङ्ग-प्रभृति- -तिभि: अप्राय ३, ७.
 अङ्ग-भूत- -तस्य निस् ६, ६: १;
 -ता: निस् ६, ६: ७; अप २३,
 १०, ७; -तात् मीस् १०, १, ४;
 -ते हिश्रौ ७, ८, ३; -तेषु

आपश्रौ १७, १६, ३; वैश्रौ १४,
 १४: २.
 अङ्गभूत-स्व- -स्वात् मीस् १०,
 १, ७; ११, ४, २.
 अङ्ग-भेद^०- -द: अअ ५, ३०.
 अङ्ग-मुख^१- -खै: अप ६९, ३, ३.
 अङ्ग-रूप-ग्रहण- -णात् पावा १,
 ४, ३.
 अङ्ग-रोग^०- -ग: बौश्रौ २, ५: ४.
 अङ्ग-ल^०- -लम् या ९, ४.
 अङ्ग-लक्षण- -णानि कौगृ ३, ५, ९.
 अङ्ग-लोमन्^०- -मानि गौगृ ३, १, ४.
 अङ्ग-वत् मीस् ४, ३, १५; ५, ३,
 ३२; ११, १, २२.
 अङ्ग-वत्- -वत् या ९, ४.
 अङ्ग-विकार^०- -र: पा २, ३, २०.
 अङ्ग-विद्^०- -वित् वाध ३, २०;
 बौध १, १, ८.
 अङ्ग-विद्या^०- (> आङ्गविद्य- पा.)
 पाग ४, ३, ७३; पावा ४, २,
 ६०.
 अङ्ग-विधि^०- -धि: मीस् ६, ४, ३२;
 १०, ३, ५.
 अङ्ग-विपर्यास^०- -स: मीस् ११, ३,
 ४६.
 अङ्ग-विप्रतिषेध^०- -धे हिश्रौ ३, ८,
 ३२.
 अङ्ग-वृद्धि^०- -द्धिम् अप ६८, २, ७.
 अङ्ग-व्यवाय- -ये ऋत ४, ५, ६.
 अङ्ग-शास् (:) माश्रौ १, ५, ५, १४;
 वाधूश्रौ ३, ४४: १८; ७६: १९;
 ९६: ३; मागृ २, ९, १; गो १,
 १०; कौस् ४७, ४२.
 अङ्ग-संयुक्त- -क्तम् मीस् १०, ३, ४.

अङ्ग-संयोग^०- -ग: मीस् १२, २,
 २९.
 अङ्ग-संहिता^०- -ता तैप्रा २४, २.
 अङ्ग-संज्ञा- -ज्ञया पावा १, ४, १;
 -ज्ञा पावा ३, १, ९१; -ज्ञायाम्
 पावा १, ४, १३.
 अङ्गसंज्ञा (ज्ञा-अ) भाव- -व:
 पावा ३, १, ९१.
 अङ्ग-संभूत^१- -तम् अप २२, १०, १.
 अङ्ग-सामान्य^०- -न्यात् बौश्रौ २, ७:
 १०.
 अङ्ग-हीन^१- -न: आपश्रौ ७, १२, २;
 बौश्रौ २८, ७: १; अप ७२, ६,
 ३; शंध ३३६; ३७७: आपध
 १, २९, ११; बौध २, १, ४९;
 विध ४५, ९; द्विध १, ७, ६८;
 मीस् ६, १, ४१.
 अङ्गहीना(न-अ)श्रोत्रिय-षण्ड-
 शूद्र-वर्जम् काश्रौ १, १, ५.
 अङ्ग-होम- -मम् वाधूश्रौ ३, ७८:
 २; वैगृ ४, १०: १०; ६, २: ३;
 ३: ४; -मान् आपश्रौ २०, ११,
 १२.
 अङ्गहोम-समित्तन्त्र-सोष्यन्त्या-
 (न्ती-आख्या >) ख्य^०- -ख्येषु
 कप्र १, ८, २३.
 अङ्गा(ङ्ग-आ)दि- -दय: अप १, ८, ५.
 अङ्गा(ङ्ग-अ)धिकार- -रस्य पावा ६,
 ४, १; -रे पावा १, १, ६३.
 अङ्गा(ङ्ग-अ)ध्यायिन्^१- -यि बौगृ १,
 ७, ४.
 अङ्गा(ङ्ग-अ)निवृत्ति- -त्ति: वाश्रौ १,
 १, १, ६७.
 अङ्गा(ङ्ग-अ)न्यस्व- -त्वात् पावा ६,

a) द्वस. > षस. । b) षस. । c) नाप. । उस. उप. < √दो इति शक. । d) विप.
 (विष्णु-) । e) वैप १, परि. च द्र. । f) द्वस. । g) मत्वर्थे ल: प्र. । h) विप. । उस. उप.
 < √विद् [ज्ञाने] । i) षंस. । j) विप. (पशु), नाप. च । तृस. । k) द्वस. > षस. ।

l) नाप. । उस. ।

वैप४-प्र-८

४, १४९; ७, ३, ५६; ४, ९३.

अङ्गा-परस्^१- -रुंषि वाधुश्री ४,
६४^४ : ४; १०३^२ : ९; वैताश्री
२४, १^०.अङ्गा(ङ-अ)भिसंबन्ध- -न्धैः मीस्
४, ४, ३६.अङ्गा(ङ-आ)श्रय- -ये पावा १, २,
६४.अङ्गा(ङ-आ)हुति^१- -तिम् अप्राय
४, २.

अङ्गिन्- -ङ्गिनः पावा २, ३, २०.

अङ्गिनी- पागवा ४, २, ५१.

अङ्गी ✓ कृ, अङ्गीकुर्वन्ति जैश्रीका
८३; कागृउ ४१ : १४.अङ्गे-ग^१- -गम् अप ७२, ४, ५.अङ्गो(ङ-उ)पदेश^१- -शः मीस् ४,
४, ३७.अङ्गो(ङ-उ)पाङ्ग^१- -ङ्गानाम् भास्
३, २८^२.†अङ्गय^१- -ङ्गयः अत्र ६, १२७;
अपं ३:३६.२अङ्ग^१-,(>अङ्गीय- पा.) पाग ४, २,
१३८.

अङ्ग-देश-समीप- -पे वृदे ४, २४.

अङ्ग-मगध^१- -धाः बौध १, १, २९.अङ्ग-राज->°ज-गृह^१- -हे वृदे ४,
२४.?अङ्ग-वङ्ग-कलिङ्ग-मागध-महेन्द्र-
गवस^१- -सम् अप ५६, १, ३.३अङ्ग^१- -ङ्गः ऋअ २, १०, १३८.

भाङ्गि- -ङ्गिः ऋअ २, १०, ११.

४अङ्ग^१- (>भाङ्गय- पा.) पाग ४,
२, ८०^१.

अङ्ग-काम- प्रभृ. १अङ्ग- द्र.

अङ्गस्- पाउ ४, २, १६.

अङ्ग-संयुक्त- प्रभृ. १अङ्ग द्र.

अङ्गार^१- पाउ ३, १३४; पाग ४, २,
३८^४; ४९^४; -रः आपश्री; -रम्
आश्री; -राः आपश्री; -रान्
कौगृ १, ४, ५^१; -रे आपश्री;
-रेण बौश्री; -रेभ्यः आपश्री
६, ९, ११; वृदे ५, १०२; -रेषु
शांश्री; -रैः आश्री; -रौ आपश्री.
आङ्गार- पा ४, २, ३८.१अङ्गार-क^१- (>अङ्गारकित-पा.)
पाग ५, २, ३६.२अङ्गार-क^१- -कः अप ५१, १, ३;
वैगृ ४, १३ : २; -कम् वैगृ १,
४ : ९; जैगृ २, ९ : १४; बांध
२, ५, २३; -कस्य जैगृ २, ९ :
११; -काय आमिगृ २, ५, १ :
१५; १८; २५; ३४; ४५; वैगृ
४, १४ : १२; जैगृ २, ९ : २२;
२६; २८; ३३.

अङ्गारक-देश- शः जैगृ २, ९ : १९.

अङ्गारक-राहु^१- -होः वैगृ ४,
१४ : ६.अङ्गार-कपाल^१- -ले कौस् २६, ३०;
३८, ५.अङ्गार-पांसु-वृष्टि^१- -ष्टेः अप ७०^३,

१८, ३.

अङ्गार-प्रासन^१- -नम् काश्री १२, १,
१६.अङ्गार-वर्ण^१- -र्णे वैगृ ३, १५ : ३.अङ्गार-वर्षण^१- -णम् अप ६७, ४, ३.अङ्गार-वालुका-धान्य^१- -न्यम् अप
७१, ८, ५.अङ्गार-वेणु^१- (>आङ्गारवैणव- पा.)
पाग ७, ३, २०.अङ्गारा(र-अ)धिवर्तन^१- -नः बौश्री
२०, ८ : १७^४; -नम् आपश्री
१, २३, ४.अङ्गारा(र-अ)ध्यून^१- -नेन बौश्री
२५, १६ : १२.अङ्गारा(र-अ)भाव^१- -वे वैगृ ६,
१८ : ४.

अङ्गारि(र->)णी- -णीः कागृ ६, २, ३.

अङ्गारित- पा ५, २, ३६.

अङ्गार्य- पा ४, २, ४९.

अङ्गिर^१- -राः शांश्री १८, ६, ५.†अङ्गिरस्^१- पाउ ४, २३६; -०रः

शांश्री १२, १९, २; १४, ५, २,

७; १५, २४, १; काश्री ५,

१, २४; आपश्री ५, ६, ३; ७,

७, १; १६, १२, २; ३५, ५;

१७, २१, ७; बौश्री २, १४ :

१५; ४, २ : ११; १४; १७; १०,

४ : १४; १६ : ५; भाश्री ७, ५,

५; माश्री १, ७, ३, १६; ४३;

वाश्री १, १, ५, ५; ६, १, २२;

a) द्रस. । b) सपा. तैत्रा ३, ७, १३, ३ त्रिधाण्यङ्गानि इति पाभे. । c) कम. । d) नाप. । उस.

उप. <√गम् । e) षस. । f) वैप १, परि च द्र. । g) व्यप. (देश-विशेष-, तद्देशवासिन्-)। व्यु. ? ।

h) व्यप. (ऋषि-विशेष-)। व्यु. ? । i) व्यप. (देश-विशेष-)। व्यु. ? । j) नाप. । व्यु. ? । k) अङ्गार-

इत्यापि काचित्कः पाभे. । l) सकृत् अङ्गरान् इति पाठः ? यनि. शोधः । m) स्वार्थे कन् प्र. । n) व्यप.

(भौम-ग्रह-) । इवार्थे कन् प्र. (पा ५, ३, ९७) । o) मध्यमपदलोपी कस. । p) द्रस. > षस. । q) षस. । उप.

भाप. < प्रा(प्र√अ)स[क्षेपणे] । r) विप. । बस. । s) समाहारे द्रस. । t) व्यप. । u) बप्रा. । विप. (मन्त्र-

[बौश्री.]), भाप. (आपश्री.) । v) °तः इति पाठः ? यनि. शोधः (तु. संस्कर्तुः टि.) । w) वैप १ द्र. । x) पाभे.

वैप १ परि. अङ्गिरः मा १२, ८ टि. द्र. ।

२, १, २, ३३; ८, १६; वैश्रौ १,
६ : ६; १०, ४ : १; ४; १८, ८ :
६; १० : ११; हिश्रौ ३, २, ५४;
४, १, ४७; २, १९; ११, ८, २३;
१२, ६, २६; २१, १, १५; निस्
८, ६ : २६; आमिष्ट २, ४, ४; १२;
७, २ : २०; भाग्य ३, २ : ८;
वैगृ ६, १६ : ६; ७, ९ : ७;
हिय १, २६, ११९; वौध ३, ७,
११९; तैप्रा ११, १७; शुभ्र १,
३०९; चाञ्च २ : १४; -रः सु
शांश्रौ १६, ११, २९; -रः सु
आश्रौ १, ३, २७, ८, ११, १; शांश्रौ
१, ६, ३; ३, १६, ५; १४,
४०, १३, आपश्रौ ४, ९, २; १६,
३४, ४; २४, ७, १०; १२, ८, ६; ८;
१२, ७; वौश्रौ २, ३ : ६; ३, २३ :
१३; २७ : ३०; १४, १ : ६; ५ :
३०; १८, २२ : १०; ११; १९, ७ :
२६; बौश्रौ १३ : १३; १० : १; भाश्रौ
४, १२, ४; १८, ७; वाधूश्रौ ३,
४२ : ४; ४, २६ : २; वाश्रौ १,
१, २, २८; वैश्रौ ६, १ : ४; १२,
१ : १९; हिश्रौ ६, ३, २ : १०;
११, ८, १५; २१, १, १; ३, १०;
लाश्रौ ८, ४, ३; ८; निस् ९,
९ : २५; १०, ७ : ३६; आपमं २,
४, ५; आमिष्ट २, ५, ३ : ३२;
काग्य ८, ६; ४०, ५; ४१, १८;
४५, ५; काग्य ४४ : २१; वौगृ
३, ७, २१; वाग्य ४, १८; कौस्
८१, ३६; १३७, २५; माग्य २, १,
६; अप ४८, १३९; शंघ ११६ :
६१; ऋञ्च २, ३४; वृदे १,
१२७; ३, ११५; ४, ९८; ५,

१०३; ६, १५६; चाञ्च १ : १०;
१६ : १६; ४१ : ५; साञ्च १,
६२८; २, १७३; २३६; ३८१-
८३; ६४८; ६६०; निघ ५, ५;
या ५, ४; १०, ३३; ११, १६;
१७; १८; १९; भाशि ७७;
-रसम् अप ४३, ३, १८; -रसा
अप ५०, १०, ४; -रसाम् शांश्रौ
१०, ९, १७; आपश्रौ १,
१२, ३; २३, ६; ५, ११, ७; २४,
६, १०; वौश्रौ १, ८ : १७; २,
१६ : ४३; २०, ८ : २३; २८, १० :
१३; भाश्रौ १, १२, १३; २४,
९; ५, ६, ७; माश्रौ १, ५, ३, १४;
वाश्रौ १, ४, ३, १; वैश्रौ १, ११ :
७; ३, ६ : १५; ४, ९ : ७; हिश्रौ
१, ३, २४; ६, २१; ३, ४, ६; १७,
२, ४५; २१, ३, ९; काग्य ४६, ७;
कौस् ७०, ६; अप्राय १, ३; ऋञ्च
२, १०, ६२; वृदे ७, १०२; चाञ्च
२ : २; १७; ८ : ५; ४१ : १; अञ्च
१६, ८; १८, ४; अपं २ : ४४; १;
-रसे वैगृ २, १२; १३; विध २१,
८; -राः आश्रौ ४, १३, ७; ७, ७,
२; ८, १, २; शांश्रौ १०, ४, १५;
१४, ५३, ६; अप २, २, २; ६४, १,
१; ६९, ८, ६; ऋञ्च २, १, ५१; वृदे
५, १९; ६, ६५; अञ्चभू ३; अञ्च २,
३; ३५; ४, ३९; ५, १२; ६, ४५; १;
१२८; ७, ५०; ७७; ९०; १९,
२२; ३४; ५४; या ३, १७ :
-रोमिः आश्रौ ५, २०, ६; शांश्रौ
८, ६, १३; वौश्रौ १३, २७ : ७;
वृदे ६, १५७; ८, १२६; शुभ्र १,
२४९; अञ्च १८, १; -रोम्यः

आश्रौ ८, ३, २५; ११, ४; शांश्रौ
१२, १९, १; वैश्रौ ९ : २०;
आमिष्ट १, २, २ : १२; भाग्य ३,
९ : १२; वौगृ ३, ९, ३; हिय १,
२२, १४; २, १९, १; कौस् ६२,
१८; अप ४३, १, १३; ४६, ९,
१८; अञ्च १२, ३; १९, २२.
आङ्गिरस- -०स आश्रौ १२,
११, १; २-५; १२; १; २; ३; ५;
१३, १; २; ६; आपश्रौ २४, ६,
११; १३; १५; १७; १८; ४-९;
११; ८, १; ३; ५; ७; ९; वौश्रौ १
१० : ५; ११ : ३; १२ : ३;
१३ : १; १४ : ३; १५ : ३;
१६ : १; १७ : १९; १८ : १;
१९ : ६; ७; २० : ४, २१ : ३;
२२ : ४; २३ : ४; २४ : ३; ४;
२५ : ३; २६ : ४; हिश्रौ २१,
३, ७; ९; १०; द्राश्रौ १, ४, ५;
लाश्रौ १, ४, २; वैध ३, १-९; ४,
१-७; -सः आश्रौ १०, ७, ४; शांश्रौ
१५, २४-२५, १; १६, २, १२;
आपश्रौ ५, ११, ७; काश्रौ २८ :
१०; वौश्रौ २, ३ : ४; १८, ४१ :
६; ४५ : १४; १६; ३३; ३५;
४७ : ४; १०; १९, ७ : ५६; १;
भाश्रौ ५, ६, ७; वाश्रौ १, ४, ३, १;
जुस् ३, ५ : १; वौगृ १, ३, १६;
कौस् १३५, ९; शंघ २८९;
सुधप ८५ : ७; ऋञ्च २, २, १;
५, १५; ३५; ८, २; २६; ४३;
९५; १०, ८८; वृदे ३, १०६;
१२६; १४५; ६, १३९; शुभ्र
१, १२०; ४८२; २, ७२; ९५;
४३०; ३, ९०; २०२; ४, १४;

a) पांसे. वैप १ परि. अङ्गिरः मा १२, ८ टि. द्र. । b) बहु. < अङ्गिरस (पा २, ४, ६५) । c) आ° इति पाठः? यनि. शोघः । d) पांसे. वैप १ परि. अङ्गिरसाम् शौ ६, ३५, ३ टि. द्र. । e) ऋरसाम् इति पाठः? यनि. शोघः । f) अगिरः इति पाठः? यनि. शोघः । g) वैप १, परि. च द्र. ।

१७१; साञ्च; अञ्च ११, १००;
-सम् आश्रौ १०, २, १; १२, ११,
१; १२, १; ४; जैश्रौ २३: १५;
जैश्रौका ६१; द्राश्रौ २, २, ४०;
लाश्रौ १, ६, ३६; जुसू ३, ५: २;
सु १९, ६; बौगृ २, २, १००;
कौसू ४७, २; १२; ऋञ्च १, २, ३;
शुञ्च ४, १६५; -सस्य माश्रौ १,
५, ३, १४; वैश्रौ १, ११: ७;
हिश्रौ ३, ४, ६; जैश्रौ २२: ४;
जैश्रौका १९; जुसू ३, ११: ७;
निस् ३, १२: ५; वृदे ३, ८३; चाञ्च
४: ८; ९; १९: ३०; ३८: १७;
४२: ७; १०; या ११, १६;
-सान् अप ४६, २, ३; -ससानाम्
अप ४६, ९, १; अञ्च १६, ८; १९,
२२; -सानि बौगृ ३, ५, ७; -साय
आपश्रौ २२, ३, १३; बौश्रौ १८,
४७: १८०; हिश्रौ १७, १, ५१;
कौसू १३५, ९०; -से बौध १,
२, ४८; पा ४, १, १०७; -सेन
हिश्रौ १७, ६, ६; कौसू १४, ३०;
आपध १, २, २; हिघ १, १, ३५;
-सेभ्यः अप ४३, १, १४०; -सौ
साञ्च.

आङ्गिरसी^१- -०सि पागृ
३, १३, २; -सी ऋश्रौ ६, ५:
७; १६, २५: ९; भाश्रौ १०, ६,
१००; वैश्रौ १२, ८: १३०; निस्
१०, ७: ३६; अप ६९, १, ४;
९, १; अशां १६, १; ऋञ्च २,
८, १; वृदे ४, २; ६, ४०; साञ्च
१, १७६; २, ४४१; -सोभिः
वृताश्रौ ५, १०; -सोम् अप

४६, २, ३; अशां १७, २; -स्यः
शाश्रौ १२, १९, ५^१; साञ्च १,
९२; -स्याम् अशां १८, ३;
१९, ३.

आङ्गिरस-गौतम^२- -मानाम्
वैध ४, ४, १.

आङ्गिरस-चैत्ररथ-कापिवन्^३-
-ना: काश्रौ २३, २, ३.

आङ्गिरस-प्रभृति- -ति द्राश्रौ
१, ४, ८; लाश्रौ १, ४, ४.

आङ्गिरस-बार्हस्पत्यै- (त्य-ए)
ककपिल-मण्डल-मुण्ड-जटिल-
कपालेश्वरा(र-अ)धिपति- -तये
अप ६६, ३, २.

आङ्गिरस-बुवाण- -०ण द्राश्रौ
१, ४, ५; लाश्रौ १, ४, २.

आङ्गिरस-सामन्^४- -म
जैश्रौका ६१.

आङ्गिरस्य^५- -स्यम् अप
६९, ५, ४.

अङ्गिरसाम्(म्-अ)यन्^६- -नम् आश्रौ
१२, २, १^३; काश्रौ २४, ४, ११;
आपश्रौ २३, ९, १०; १६; बौश्रौ
१६, १६: ३; २६, १७: ७;
हिश्रौ १८, ३, १४; ४, ६५; अञ्च
१८, ४; -ने शाश्रौ १३, २२, १.

अङ्गिरसाम् (अयन-) आश्रौ
१२, ५, ७; शाश्रौ १३, २८, ३;
आपश्रौ २३, १४, १०.

अङ्गिरसाम्(प्रयति^७-) आपश्रौ
२२, ५, १७.

आङ्गिरस-तम- -०म आश्रौ २, १०,
१२; ३, १०, ४; शाश्रौ ९, २३,
१२; आपश्रौ ९, १, ८; बौश्रौ

१३, ५: २; २९, १०: ५; भाश्रौ
९, १, ८; माश्रौ १, ६, ३, १; वैश्रौ
२०, २: ३; हिश्रौ १५, १, ८; २२,
२, १४; अयाय ५, ३; -म: ऋत
३, २, ८.

आङ्गिरस-पति^८- -तये वैगृ २, २:
९; ४, ५: १८; ५, १४: ११.

अङ्गिरस-वत् आश्रौ; पावा १, ४, १८.

आङ्गिरस-वत्^९- -वत: आश्रौ ४,
७, ४; बौश्रौ ९, ११: २९; -वते
शाश्रौ ४, ४, १; आपश्रौ १, ८, ४;
८, १३, १६; बौश्रौ ३, १०: १६;
९, १०: १२; १९: ११; भाश्रौ
१, ८, २; वाश्रौ १, ३, ३, १२;
हिश्रौ २, ७, १५; आमिगृ ३, १,
१: १३; बौगृ ३, ४, ६; भागृ २,
१२: २; मागृ २, ९, १३; हिगृ
२, १०, ७; जैगृ २, १: १६;
बौध २, ८, ७; -वन्तम् बौश्रौ
२, १०: १३; ९, १९: १९;
बौगृ २, ११, ३१; ३, ४, १२;
-वान् शाश्रौ १८, ५, १^१.

अङ्गिरो-धा (मन् >) ऋी^{१०}- ऋी:
माश्रौ ६, २, १, २०.

अङ्गिरो-वत्^{११} आपश्रौ.
अङ्गिरो-वत्^{१२}- -तम् चाञ्च ८: ५.

अङ्गिणी ✓ कृ १ अङ्ग- द्र.

अङ्गीय- २ अङ्ग- द्र.

अङ्गीरस- [= अङ्गिरस-]

आङ्गीरस- -स: आपश्रौ १४,
११-१२, २; हिश्रौ १०, ६, ९;
-सम् जुसू ३, ५: ५; -साय
आपश्रौ १४, ११, ३; हिश्रौ १०,
६, ९; -सेन आपश्रौ २२, १४, १८.

a) विप. च नाप. च । वैप. १ द्र. । b) अङ्गि^{१३} इति पाठः ? यनि. शोधः । c) द्रस. ।

d) कस. । e) कर्मणि व्यञ् प्र. (पा ५, १, १२४) । f) नाप. (सत्र-विशेष-) । g) नाप. (एकाह-विशेष-) ।

h) नाप. (देवता-विशेष-) । षस. । i) वैप १, परि च द्र. । j) सपा. तैत्रा २, ७, १३, २ अङ्गि-बर्हाः इति पाभे. ।

k) नाप. (इष्टका-विशेष-) । l) षस. ।

अङ्गु-

अङ्गु-^१ पा ८,३,९७; पाग ५, २, २४; फि १४; -ष्टः शाश्रौ; -ष्टम् आश्रौ; हिश्रौ २१, २, ५२^{१७}; -ष्टस्य वैगु; शंघ ४५७:३; ४५८: ३^{१८}; -ष्टा: कप्र १,७,४; -ष्टान् अप; -ष्टाभ्याम् काश्रौ; -ष्टे आमिगु; -ष्टेन आश्रौ; -ष्टौ काश्रौ. अङ्गुष्ट-कनिष्ठिका^१ - काभ्याम् काश्रौ २५,८,१; आमिगु २, ६, १: २०; वैगु १,२: १०. अङ्गुष्ट-जाह- पा ५,२,२४. अङ्गुष्ट-तर्जनी^१ - न्यो: आमिगु २, ६, १: ७. अङ्गुष्ट-द्विती(य>)या^१ - यामि: कागु २४,१३. अङ्गुष्ट-परुस^१ - रुषा बौश्रौ २४, २५: ३. अङ्गुष्ट-पर्वन्^१ - र्वण: अप २२, २,४; -र्वणा शाश्रौ १४,१६,३. अङ्गुष्टपर्व-पृथु-मा(त्र>)- त्री^१ - त्री: द्राश्रौ ५, २, ३; लाश्रौ २,६,१; निस् १,११: ६. अङ्गुष्टपर्व-मात्र^१ - त्र: आपश्रौ १८, १०, १६; हिश्रौ १३, ४, ७; -त्रम् काश्रौ १,९, ६; आपश्रौ २, १८, ९; माश्रौ १, ६, ४, १४; वाश्रौ ३, ३, १, ३६; वैश्रौ ६, ८: ४; -त्राणि बौश्रौ २४, २८: ७; भाश्रौ २, १७, १०; माश्रौ १, ३, २, १२; ७,४, १; वाश्रौ १, १, १, ३७; ७, २, १८; वैश्रौ ६, ६: ५; हिश्रौ २, २, ११; -त्रेण बौश्रौ २६, २४:

१५; -त्रेणऽ-त्रेण बौश्रौ २६, २४: १. अङ्गुष्टपर्व-वृत्त-पुष्कर^१ - र: काश्रौ १,३,३९. अङ्गुष्टपर्व(र्व-अ)प्र-मुख^१ - खम् अप २३,४,५. अङ्गुष्टपर्व(र्व-उ)क्त^१ - क्तम् आमिगु २,३,१: १३. अङ्गुष्ट-पाश^१ - शौ गौपि १, ३, १०. अङ्गुष्ट-पृथ्व(धु-अ)प्र^१ - प्रम् कप्र २, ५, १४. अङ्गुष्ट-प्रदेशिनी^१ - नीभ्याम् वैगु १,२: १०. अङ्गुष्ट-प्रभृति- तय: वैताश्रौ ११,२४; -ति काश्रौ ७,७,१२; वैश्रौ १२,६: ७; -तीनि काश्रौ ७,२,६^१. अङ्गुष्ट-प्रसृताङ्गुली^१ - ली: वैश्रौ ६, १२: २. अङ्गुष्ट-बन्ध^१ - न्धम् आमिगु ३, ४, १: ६; बौपि^१ ३, २, २; ४, ११; -न्धौ वैगु ५, ५: २७. अङ्गुष्ट-मध्य(म>)मा^१ - माभ्याम् वैगु १, २: ९. अङ्गुष्ट-मात्र^१ - त्र: हिश्रौ १३, ४, ६; बौध २, ७, १०^१; -त्रम् कप्र १, ७, ९; -त्राणि कप्र १, ७, ८. अङ्गुष्ट-मूल^१ - लम् आमिगु ३, ११, ३: १३; वैगु ५, १३: २२; बौध १, ५, १२; -लस्य आमिगु २, ६, १: ७; वाध ३, २६; शंघ ५४; -ले विध ६२, २; -लेन

वैगु १, २: ७. अङ्गुष्ट-योग^१ - गेन शंघ ५७^१. अङ्गुष्टा(ष्ट-आ)कुञ्चन^१ - नम् याशि १, ६४. अङ्गुष्टा(ष्ट-अ)प्र^१ - प्रम् अप ३८, २, १; -त्रेण कौशि ३८; नाशि १, ६, ६. अङ्गुष्टाप्र-ग्रह^१ - हम् कप्र १, ४, १०. अङ्गुष्टाप्र-प्रकुञ्चन^१ - नम् माशि ४, १३. अङ्गुष्टाप्र-प्रमाण- गेन अप २७, २, ४. अङ्गुष्टा(ष्ट-अ)इय- इयम् बौध १, ५, १३. अङ्गुष्टा(ष्ट-अ)ङ्गुलि^१ - लिभ्याम् काश्रौ २, ६, ३२. अङ्गुष्टाङ्गुलि-मान- नम् कप्र १, ७, ६. अङ्गुष्टा(ष्ट-आ)दि- दिभ्य: वैध १, ११, ४. अङ्गुष्टा(ष्ट-अ)नामिका^१ - काभ्याम् आमिगु २, ६, १: १९; ७, ८: ४; वैगु १, २: ९; कप्र १, १, ६; -के द्राश्रौ ६, २, ११; लाश्रौ २, १०, ११. अङ्गुष्टा(ष्ट-अ)नामिका-मध्यम^१ - मै: वैगु २, १८: ७. अङ्गुष्टा(ष्ट-अ)र्ध- र्धम् आमिगु २, ७, ७: १०. अङ्गुष्टा(ष्ट-अ)वबाधन^१ - नम् वैश्रौ १५, २७: ३; ८. अङ्गुष्टो(ष्ट-उ)पकनिष्ठिका^१ - कया बौपि २, १२, २; ३, १०, १.

a) नाप. । वैप १ द्र. । b) °ष्टप्रा° इति पाठः? यनि. च प्रा° इति च द्वि-पदः शोधः । c) °ष्टा° इति पाठः? यनि. शोधः (तु. पूर्वः संकेतः) । d) द्वस. । e) विप. । बस. । f) षस. । g) विप. (कुशाऽप्र- काष्ठ-कुशा-) । h) विप. । तृस. । i) °व्यप्र° इति web पाठः । j) =अङ्गुष्टपाश- । k) अङ्गु° इति पाठः? यनि. शोधः । l) मध्यमपदलोपी कस. ।

२अङ्गुष्ठो(ष्ठ-ङ्)पकनिष्ठिका^a-
 -काभ्याम् आश्रौ १,३,३१; १३,
 १; ५; ५, १९, ६; आगृ १, ३, ३;
 ४, ५, ५; ६, ११; कौगृ १, ४, ५;
 आग्निरु ३, ४, ५ : ३.
अङ्गुरि^b- पाउभो २, १, २३१.
अङ्गुल^c- लम् अप २२, ६, २; २३,
 ३, २; ५, ५; काशु ५, १०; -लस्य
 अप २६, १, ३; काशु ७, २५;
 -लानि वैश्रौ १, १ : १७; २५;
 अप २२, २, ४; ५, ५; ६, ३; २३, ३,
 ४; १०, २; ३; बौशु १७ : ५,
 -लैः कप्र १, ९, १; काशु २, १.
अङ्गुल-त्रय^d- यम् अप २३, ९, ५.
अङ्गुल-प्रमाण^e- णम् बौशु १ : २.
अङ्गुल-मान^f- ने अप २१, २, ४.
अङ्गुला(ल-अ)ग्र^g- मेषु वैगृ ५,
 १३ : १६.
अङ्गुलि, ली^h- पाउ ४, २; पाग ५,
 ३, १०८; -लयःⁱ या ३, ८४;
 ९; -लिः बौश्रौ; -लिभिः,
 -लिभ्याम् शाश्रौ; -लिम्, -ली
 काश्रौ; -लीः आश्रौ; -लीनाम्
 भाश्रौ; -लीभिः आश्रौ;
 -लीभ्याम् आपश्रौ; -लीम् हिश्रौ
 १०, ४, २३; -लीपु जैगृ २, ४;
 ३; -लेः हिश्रौ ४, १, ३५; पा ५,
 ४, ८६; ११४; ८, ३, ८०;
 -लौ बौश्रौ १, १८ : ८; २० :
 १४; ३, २८ : २२; ६, १३ : १५;
 १४, १२ : २३; -ल्यः माशि २,
 ९; -ल्या काश्रौ; -ल्याम् वैगृ
 १, ३ : ७.
आङ्गुलिक^j- पा ५, ३, १०८.
अङ्गुलि-कनिष्ठिका-मूल^k- ले वाघ

३, ६४.
अङ्गुलि-काण्ड^l- ण्डम् आपश्रौ ७,
 ३, ६; २२, ९, १४; बौश्रौ १९,
 २ : ११; भाश्रौ ७, २, ११; हिश्रौ
 ४, १, ३४; १७, ४, ८.
अङ्गुलि-चतुष्क^m- -क्केण शंघ ५७;
 ४५६.
अङ्गुलि-नामन्ⁿ- -मानि निघ २,
 ५; या ३, ८.
अङ्गुलि-परु^o- -रु आपश्रौ १९,
 ११, ३; हिश्रौ २३, २, ३; ३, २३.
अङ्गुलि-परुस्^p- -रुषि वाधुश्रौ ४,
 १०३^q : ९; १०.
अङ्गुलि-पर्वन्^r- -र्वणा काश्रौ २२,
 ८, १६; -र्वणि शंघ ५४; -र्वणी
 काश्रौ ३, ४, ६^s; आपश्रौ ३,
 २, ३; ९, ७; भाश्रौ ३, १, १०; ८,
 १२; माश्रौ १, ३, ३, ९; ५, ७; वाश्रौ
 १, ३, ५, ७; ७, १०; वैश्रौ ७, ९;
 ९; हिश्रौ २, ३, १६; ५, १२;
 २१, २, ५१; ६८; -र्वमिः लाश्रौ
 ८, ९, ९.
अङ्गुलि-प्रक्षालन^t- नम् आपश्रौ १,
 २५, १४; भाश्रौ १, २६, १०;
 वैश्रौ ४, १० : १४; हिश्रौ १, ६,
 ५६.
अङ्गुलि-मात्र^u- -त्रम् माश्रौ १, ८,
 १, १७; वाश्रौ १, ६, ३, ९; हिश्रौ
 ४, १, ३५.
अङ्गुलि-मुद्रा^v- -द्राम् गौपि २, ६, १२.
अङ्गुलि-मूल^w- -लम् बौध १, ५, १३.
अङ्गुलि-(स>)षङ्ग^x- पा ८, ३, ८०.
अङ्गुली-तल^y- -लानाम् आमिग २,
 ६, १ : २२.
अङ्गुली-पीडन^z- नम् माशि ४, ११.

अङ्गुली-मध्य^{aa}- -ध्ये आमिग २, ६,
 १ : ६.
अङ्गुलीय^{ab}- पा ४, ३, ६२; -यम्
 आमिग ३, ११, ४ : १६.
अङ्गुलीय-क^{ac}- -कम् आमिग
 ३, ३, २ : १९; वैगृ २, १५ : ५.
अङ्गुल्य^{ad}- -ल्यम् वाघ ३, ६५.
अङ्गुल्य(लि-अ)ग्र^{ae}- -ग्रम् बौध १,
 ५, १३; -ग्राणि आश्रौ १, २, १;
 -ग्रे आमिग २, ६, १ : ६; विघ
 ६२, ३; -ग्रेण आमिग २, ६, १ :
 २१; -ग्रेषु वाघ ३, ६६.
अङ्गुल्यग्र-प्रकुञ्चन^{af}- -नम्
 माशि ४, ११.
अङ्गुल्य(लि-अ)ङ्गुष्ठ^{ag}- -ष्ठयोः
 बौध १, ५, १३.
अङ्गुल्यङ्गुष्ठ-रञ्जि(त>)ता^{ah}-
 -ता नाशि १, ६, २.
अङ्गुल्य(लि-अ)न्तर^{ai}- -रेषु काश्रौ
 ९, ४, ९; वैश्रौ १५, १० : २;
 ११ : १०.
अङ्गुल्य(ल-अ)पचय^{aj}- -यः काश्रौसं
 २९ : १५.
अङ्गुल्या(लि-आ)दि^{ak}- -दिभ्यः पा
 ५, ३, १०८.
अङ्गु-ष्ठ^{al}- प्रसृ. अङ्गु- द्र.
अङ्गु-प^{am}- पाउभो २, ३, १६६.
अङ्गु-ग^{an}- प्रसृ. अङ्गु- द्र.
√अङ्घ^{ao}¹, पाधा. भ्वा. आत्म. गतौ,
 गत्यारम्भे, आक्षेपे च.
अङ्घि^{ap}- पाउभो २, १, २२४;
 -ङ्घिप्रणा काश्रौ ३, १, १६;
 शुभ्र १, ११४.
अङ्घि-शोधन^{aq}- ने कागृउ
 ४५ : ४.

a) द्रस. । b) वैप १, परि. च द्र. । c) =अङ्गुरि, लि- । व्यु? । d) विप. । बस. । e) षस. ।
 f) =अङ्गुरि-, अङ्गुल- । वैप १ द्र. । g) वैतु. ल. ल्यः इति? । h) षस. > षस. । i) ली इति web. पाठः ।
 j) नाप. । k) विप. । विप्रतिषेधेन तत्रभवीयः यत् प्र. (पा ४, ३, ५५) । l) तु. √अंघ, √अघ्, √अह् ।

अङ्कारि^a - रिः^b बौश्री ६, २९ : १२; वैश्री १४, १२ : ११; हिश्री ७, ७, ३३^c; जैश्री १३ : १५; द्राश्री ४, २, ९; लाश्री २, २, १८^c; -० रे बौश्री ६, १५ : १५; वैश्री १२, १९ : ८.

अङ्घ्रि- √ अङ्घ्र द.

√ अच्, ङच् (बधा.)^d, पाधा. भ्वा. उभ. गतौ याचने च, पर. गतिपूजनयोः, चु. उभ. विशेषणो; अचते^e; काश्री ७, ३, ५; अचति निघ २, १४^f.

१अ(ङ्)क्ता- -क्तया या ६, ८.

अक्न- पा ८, २, ४८.

अचित- -तः या ११, २५.

अञ्चति- पाउ ४, ६१; पा. पाग ४, १, ४५.

अञ्चती- पा ४, १, ४५.

अञ्चना^g- -नाः या ३, ८^h.

अञ्चलⁱ- पाउना १, १०५.

अञ्चित- -तम् या ५, १७; २५^j.

अ-चक्र-व(र्त>)र्ता^k- -र्ता आपश्री ६, ३, ७^l; -र्ताम् भाश्री ६, ८, १४^m.

अ-चक्र-वृ(त्त>)त्ताⁿ- -त्ता वाश्री १, ५, २, १०^o.

अ-चक्रा (क-आ) व (र्त>)र्ता^p- -र्ताम् हिश्री ३, ७, १५^q.

अ-चक्षुस्^r- -क्षुः अप ७२, ६, २; -क्षुषे बौध २, ३, ५०.

१अ-चतुर^s- > १-विचतुर-सुचतुर-क्षीपुंस-धेन्वन्तुह (ह-ऋ) कंसाम-वाङ्मनसा (स-अ) क्षिभ्रुव-दारगवो (व-ऊ) वैष्टीव-पदष्टीव-नक्तदिव-रात्रिदिवा(व-अ) हर्दिव-सरजस-निश्रेयस-पुरुषायुष-द्रयायुष-न्यायुष- (ष-ऋ) गर्वजुष-जातोक्ष-महोक्ष-वृद्धोक्षो(क्ष-उ)-पशुन-गोष्टश्च^t- -श्वाः पा ५, ४, ७७.

२अ-चतुर^u- > आचतुर्यं- पा ५, १, १२१.

अ-चतुर-संगत-लवण-वट-बुध-कत-रस-लस^v- -सेभ्यः पा ५, १, १२१.

अ-चतुष्-प(द्>)दा^w- दाः आश्री ५, १४, १०.

अ-चमस^x- -साः आश्री ५, ६, २०; -सौ बौश्री २५, १९ : ११.

अ-चयन- -नम् काश्री १६, ६, १४; ७, २७; १८, ६, ३४.

अ-च-योग^y- -ने पावा ३, २, १२६.

अ-चर^z- -रम् विध ९७, १८.

१अ-चरण^{aa}- -णे काश्री १, ३२.

अचरणीय- -यान् माश्री १, ३, ४;

-येन बौध ३, १०, ३.

२अ-चरण^{ab}- -णाः वाधूश्री ४, १८ : २५; २९.

अ-चरम^{ac}- -माः आश्री २, १७, १५;

३, ७, १२; -मे पावा ४, १, २०. अ-चरित-वेद-व्रत^{ad}- -ताय अप ४०, १, २.

अ-चरित्वा काश्री २०, ८, १७; बौश्री २१, २३ : १४.

अ-चरिष्यत्- -व्यन्तम्^{ae} द्राश्री २, ५, ७.

अ-चल, ला- -लः विध २०, ५२; -लम् वैश्री १, ७ : ३; अप ७०^{af}, २३, ५^{ag}; आपध १, २२, ४; हिध १, ६, ४; -लानाम् अप ६४, ३, ४; -लानि अप ७०^{ah}, २, २; -लायै बौश्री २, ८, १३^{ai}.

अचल-क्रिया^{aj}- -या अप ६४, ३, ४.

अचल-प्रति(ष्ठा>)ष्ट^{ak}- -ष्टम् विध ७२, ७.

अ-चषाल, ला^{al}- -लः आश्री ९, ७, १७; काश्री २२, ३, ७; बौश्री २०, २५; ८; २४, ३५; ३; लाश्री ८, -लम् आपश्री ५, ७; १४, ७, १२; बौश्री २६, २४; १६; वाश्री ३, २, ६, ५८; हिश्री ९, ८, ४३; -ला बौश्री २०, २५ : १२.

अ-चात्वा^{am}- -ले बौध १, ७, १६.

अ-चायम्^{an} बौश्री १५, १९; ४.

अ-चारु- पाग ६, २, १६०.

अ-चाल्य-व(त्स >)त्सा^{ao}- -त्साः अप ७०^{ap}, ३२, २०.

अ-चिच्यावयिषत्- -षत् निस् ६,

a) वैप १, परि. च द्र. । b) पाभे. वैप १, परि. द्र. । c) अन्वारिः इति पाठः? यनि. शोधः (तु. मा ५, ३२) । d) या २, २८; ५, २८ शुप्रा ५, ३० अप्रा २, ४, १४; १५; ३, ३, २१; ४, १ शौच ४, ५३ पा २, १, १२; ३, २, ५९; ५, ३, ३०; ६, २, ५२; ३, ९२; ४, ३०; १३८; ७, २, ५३ पावा ४, १, ६; ६, ३, ११६; ७, १, ७०; ८, २, ४८ इत्यत्राऽयं परामृष्टः द्र. । e) धा. संकोचे वृत्तिः । f) तु. लघुः मूको. । g) विप. । कर्तरि कृत. । h) √ अञ्च् > अञ्जनाः इति मूको. पाभे. । i) विप. (अग्निहोत्र-स्थाली) । तस. उप. बस. । बर्त- इति च आवर्त- इति च भाप. । j) सप्र. ऋवर्ता<> ऋवर्ताम्<> ऋवृत्ता<> ऋवर्ताम् इति पाभे. । k) विप. वा नाप. वा । बस. । l) बस. समासान्तः अच् प्र. । उप. <चतुर- । m) द्रस. । n) तस. उप. = प्रवीण- । o) तस. > द्रस. । p) विप. । तस. > बस. । q) विप. । बस. । r) तस. । s) तस. उप. भाप. । t) बस. । उप. = शाखा- । u) विप. । तस. । उप. बस. > द्रस. । v) भा^o इति आन. । w) व्यप. । x) कस. । y) तस. । उप. √ चि | चयने | णमुल् प्र. । z) तस. > बस. ।

९; २३^२.
 †अ-चित^१ - तम् आपश्रौ १६, ३४,
 ४; बौश्रौ १९, ४: १२; वैश्रौ १८,
 २१: ३; हिश्रौ ११, ८, १५.
 †१अ-चित्त^२ - त्तान् आपश्रौ १४,
 २९, ३; बौश्रौ ९, ७: १५; हिश्रौ
 १५, ७, १६; अप्राय ५, ६.
 २अ-चित्त^३ - त्तात् पा ४, ३, ९६;
 पावा ४, २, १०४.
 अचित्त-हस्ति-धेनु^४ - नो: पा ४,
 २, ४७.
 †अ-चित्त-पाजस्^५ - जा: शांश्रौ
 १०, १८, ४^६.
 †अ-चित्त-मनस्^६ - ना: शांश्रौ १०,
 १८, ४^६.
 †अ-चित्ति^७ - त्तिम् आपश्रौ १६,
 ३४, ३; ४; बौश्रौ १०, ३६:
 १८; ३८: २६; ४०: २२; ४३:
 ४; ४६: ५१; १७, १७: ९;
 १९, ४: १३; वैश्रौ १८, २१:
 २९; ३१; हिश्रौ ११, ८, १४;
 १५; -त्ती माश्रौ ५, २, ४, ४३.
 अ-चित्त्वा आग्र ४, २, २२.
 अ-चिन्त्य - -न्त्य विध १, ५३; ९८,
 ३२; -न्त्य: विध २०, ५३.
 अ-चिर^८ - रम् विध २०, ४०; -रात्
 अप २२, १०, ३; ७०^३, १५, ४;
 ७०^३, २७, ९; ७१, १३, ४; १५,
 ३; -रेण सु ८, २; अप ६८, ५,
 ५; ६.
 अचिर(र-अ)पहृत^९ - ते पा ५, २,
 ७०.
 अचिरो(र-उ)पसंपत्ति^{१०} - -त्तौ पा
 ६, २, ५६.
 अ-चेतन^{११} - नम् अप ५५, ४, २;

-नानि या ७, ७; -ने मीस् १,
 २, ३५; -नेषु या ७, ७; पावा
 ३, १, ७.
 अ-चेतयमान^{१२} - नस्य या ३, २.
 अ-चेतस्^{१३} - तस: अप ३५, १, १६.
 †अ-चेतान^{१४} - नस्य या ३, २४.
 अ-चे(ष्टा >)ष्ट^{१५} - ष्टम् हिष्ट १, २३,
 १.
 अ-चोदक^{१६} - का: मीस् २, २, १८.
 अ-चोदन^{१७} - नम् मीस् ४, २, २३;
 -नात् मीस् ३, ३, १७; ३४; ६,
 ४, ३९; ९, १, १३; १०, २, ४४.
 अ-चोदना^{१८} - ना मीस् १, २, २७; ३,
 १, २३; ६, २७; ५, ३, १६; ११,
 २, ३४.
 अ-चोदना (ना-अ)भिधानत्व^{१९} -
 -त्वात् मीस् २, ४, १०.
 †अ-चोदस्^{२०} - दस: जैश्रौका २१३;
 लुस् ३, ११: २२; ऋअ २, ९,
 ७९; साअ १: ५५५.
 अ-चोदित, ता - त: मीस् ९, १, १९;
 -तम् मीस् ३, ४, ३०; ९, १,
 ३६; -तस्य मीस् ५, २, १७;
 -ता अप ६४, १०, ३; -ते मीस्
 ३, २, २; ४, ३, ३६.
 अचोदित-त्व - त्वात् काश्रौ १, ६,
 ३; ८, ३३; ६, ३, २१; ७, १, २७;
 १२, ६, ३२; २५, ५, २७; मीस्
 २, ४, २५; ३, ३, ४४; ७, ३१;
 ८, ३५; ६, ८, ३६; ४४; ९, १,
 २५; २, ६०; ३, १४; १६.
 अ-चोर-हरणीय^{२१} - यम् कौष्ट ३,
 १२, २५.
 †अच्छ, च्छा^{२२} आश्रौ २, २०, ४; ३, ८,
 १^२; १०, ६; ६, १, २; ८, ३, ३४;

९, २; शांश्रौ ९, २३, ११; १२,
 १२, ६; आपश्रौ ६, २८, ११; १०,
 २४, २९; १४, ८, ६^३; बौश्रौ १,
 २: ५; १०, ११: ११; १८, ४५:
 २९; २४, १: ४; भाश्रौ १, ३, ७;
 माश्रौ १, ६, ३, ३; हिश्रौ ३, ८,
 १०; ७, २, ३६९; वैताश्रौ २५,
 ९; ४२, ८; आपमं २, ११;
 २८; सु १२, ४९; १९, ३९;
 कौस् ४, २; अप्राय ६, १; ऋअ २,
 १०, ४३; ३, ३०; वृदे २, ९५;
 शुअ ३, १४३; साअ १, ३७५;
 अअ २०, १७; निघ ४, २; या २,
 २५; ४, २४; ६, १६; ऋप्रा ७,
 ६; शुप्रा ४, ३१; तैप्रा ३, ८;
 ऋत ४, ७, ९; पा १, ४, ६९;
 पाग १, ४, ५७.
 अच्छ ✓ या, अच्छयाहि ऋप्रा ७, ६१.
 अच्छा ✓ गम्, अच्छा (गन्तु) वृदे ५,
 ४१.
 अच्छा ✓ गा, †अच्छाजिगासि बौश्रौ
 १०, २१: १; तैप्रा १६, १८^४.
 †अच्छा...गात् आपश्रौ १२,
 १५, ६; हिश्रौ ८, ४, २१.
 अच्छा ✓ गै, †अच्छा (गासि) आश्रौ
 ५, ७, २; ८, १२, ६; शांश्रौ ७, ६,
 १; १०, १२, १६; ऋअ २, ५, २५.
 अच्छा ✓ नश् (व्याप्तौ), †अच्छा-
 नक्षि बौश्रौ ३, ८: ३१.
 अच्छा ✓ नी, अच्छा...नयन्तु बौश्रौ
 ९, २: ८-९; ३: ३; ४.
 अच्छा ✓ या, अच्छा (अयासम्) वृदे
 ४, १०७,
 अच्छा ✓ वच् > अच्छा-वाक्^५ -
 -†०क आश्रौ ५, ७, २; शांश्रौ

a) वैप १, परि. च द्र. ।
 वा. क्रिवि. । f) विप. । तस. ।
 j) जिवासि इति शाखान्तरीयः पाभे. ।

b) विप. । बस. । c) द्वस. । d) पाभे. वैप १ परि. द्र. । e) तस. ।
 g) भाप. (अभिनिवृत्त-) । तस. । h) नाप. । तस. । i) तस. ।

७, ६, १; काश्रौ ९, १२, १०;
 आपश्रौ १२, २६, २; ५;
 बौश्रौ ७, १५ : १५; २१; २४;
 ८, ४ : १७; माश्रौ २, ४, १,
 ४९; ५३; वैश्रौ १५, ३३ : १०;
 १५; हिश्रौ ८, ७, ६९; ७२; -कः
 आश्रौ ४, १, ६; ५, ५, १७; ७,
 १; १०, १०; ६, ४, ६; ६, २;
 ७, २, १७; ९, ४; ११, ३७; ८,
 ४, १०; ७, ८; १२, ६; शाश्रौ
 ७, ६, १; ४; ८; ७, १; १४,
 २; ८, २, १०; १२, २, २२; ६,
 ११; १४; ७, ७; १३, १४, १;
 २४, ९; आपश्रौ १२, २६, १, ३;
 २३, १०, १२; बौश्रौ २, ३ : १०;
 ७, १५ : १४; १७; २५; ३१;
 २० : १९; १६, ५ : २०; १७,
 ९ : ६; १८ : ५; १९ : ३; २१ :
 ५; २६, १४; ६; माश्रौ २, ४, १,
 ४८; ४, २८; ५, ८; वाधूश्रौ ४,
 ८४ : १३; ८५ : ९; वाश्रौ ३,
 २, २, ५; वैश्रौ १२, १ : ५;
 १५, ३३ : ९; १७; हिश्रौ ८, ६,
 ४०; ७, ६८; ७०; १०, १, ५; ४,
 ४२; १८, ४, १०; जैश्रौका ११३;
 द्राश्रौ ४, ३, ५; लाश्रौ २, ३, ५;
 वैताश्रौ ११, ३; बौश्रौ ३, १०, ६;
 -कम् शाश्रौ ६, १३, २; ७, ६,
 ९; काश्रौ १०, ९, २८; आपश्रौ
 १०, १, ९; १२, ५, १५; बौश्रौ
 ७, १ : ३; १५ : २५; ३१; १६,
 १ : १४; वैश्रौ १२, २ : ३; १५,
 ३५ : ७; हिश्रौ १६, १, ३६;
 -कस्य आश्रौ ५, ३, १७; ७, २,
 ४; ४, ४; ५, १७; ८, ३; ८, ४,
 १; ९, ४, १८; ११, ९; १२, ९,
 ७; शाश्रौ ६, १२, १४; २०;

७, ७, ४; १३, १; १७, १०; १३;
 २४, १; ९, ४, १; १०, १; १४,
 १; १८, १; १९, १; १२, १, ५;
 २, ८; ५, १; ६, १७; २६, २;
 १४, ३, १०; ५२, १०; १३; ५५,
 २; १५, ७, ५; ८, ४; ११; १७;
 १९; १६, २१, २९; आपश्रौ ११,
 १४, ५; १२, २६, ४; २२, १०,
 १३; बौश्रौ ६, २९ : १३; ७,
 ११ : १०; १३ : ६; १५ : १६;
 १९; २० : १; १८; २४; ८,
 ४ : १; ६ : १०; ८ : २३; १;
 १२ : २८; १६, २ : ४; १७,
 ९ : १; ५; १८, १५ : ३; ९;
 १८; २६ : २; ३; २९ : १८;
 २०; २१; २५, १३ : १८; २० :
 ७; २९, २ : ५; माश्रौ २, ५,
 ३, १३; वाधूश्रौ ४, २६ : ३४;
 † वैश्रौ १५, २७ : १३; ३८ :
 ४; १६, ४ : ११; १३ : १२;
 हिश्रौ ७, ७, ३३; ८, ७, १;
 ९, २, ५; ३, ४६; ७,
 ५९; १७, ४, ३१; जैश्रौ
 १३ : १६; लाश्रौ ८, १०,
 १०; वैताश्रौ २०, १४; छुम्
 २, ९ : १७; २०; अप्राय ३,
 ३; -कात् आश्रौ ५, ३, १२;
 -काय शाश्रौ १३, १०, १०;
 काश्रौ ९, १२, १०; १४, १५;
 १५, ८, २३; २२, १०, ६;
 आपश्रौ १२, २५, ११; १४, २३,
 १३; १८, २१, ७; २२, १०,
 १५; बौश्रौ ७, २० : १८; १२,
 १८ : १७; १७, ९; ४; १५; माश्रौ
 २, ४, ३, २६; ६, २५; ३, ७, २;
 वैश्रौ १५, ३३ : १; १६, ६ : ३;
 हिश्रौ ८, ७, ५९; ९, २, ९; १५,

६, ३२; १७, ४, ३३; वैताश्रौ
 २०, १३; -के काश्रौ ९, १२,
 १८; बौश्रौ ७, १५ : २२; १५,
 ३३ : १२; -केन काठश्रौ १४२;
 बौश्रौ ७, १६ : ५३; हिश्रौ ८,
 ७, ७०; द्राश्रौ ९, २, १७; लाश्रौ
 ३, ६, १८.

अच्छावाक-चमस^a - सम्
 काश्रौ ९, १२, १३; आपश्रौ १३,
 ४, १२; काठश्रौ १३७; बौश्रौ
 ७, १५ : २०; २० : ९; २७; ८,
 ८ : २८; १७, ९ : १; ८; ११; १८,
 १५ : १९; माश्रौ २, ४, १, ५२;
 ५७; वैश्रौ १५, ३३ : १४; हिश्रौ
 ८, ७, ७१; ८, ४६; ९, २, ६;
 -सस्य हिश्रौ ८, ७, ७७; -सात्
 माश्रौ २, ४, १, २; हिश्रौ ८,
 ७, २; -से बौश्रौ २५, १९ :
 १४; १५; २२ : ४; वैश्रौ १५,
 ३८ : ११; १२; हिश्रौ ८, ८,
 ६१; -सेन आपश्रौ १३, ४,
 १६.

अच्छावाकचमस-मुख्य^b -
 -ख्यः आपश्रौ १४, ३, १०;
 -ख्यान् आपश्रौ १२, २९, ९;
 हिश्रौ ८, ८, ५८; ५९; ९, ७,
 २२; ४२; -ख्येषु माश्रौ २, ४,
 ३, २४; ६, २४.

अच्छावाकचमस-वर्ज^c -
 -जान् वैश्रौ १५, २७ : १९.

अच्छावाकचमस-होम^d -
 -मम् वैताश्रौ १९, २१.
 अच्छावाक-निगदो (द-उ)
 पद्व-प्रत्युपहव^d - वे आश्रौ ४,
 १, १६.

अच्छावाक-भक्ष^e - क्षात्
 वैताश्रौ २१, ७; २२, १५.

a) षस. । b) विप. । बस. । c) विप. । बस. । उप. भाप. । d) षस. । उप. द्वस. ।

अच्छावाक-विग्रह^a- -हात्
काश्रौ ९; १४, १६; -हेषु काश्रौ
२२, १०, ३.

अच्छावाक-सामन्^b- -म
लाश्रौ ८, १२, १३; लुस् १, ११ :
२०; निस् ८, ६ : १४; ९, ४ :
३७; -मा निस् ६, ५ : ११;
-म्नः निस् ६, ११ : ४; -म्नोः
निस् ६, ११ : ३४;

अच्छावाक-सूक्त- -क्तस्य
शाश्रौ १४, ५२, ३.

अच्छावाक-स्तोत्र- -त्रेण
लाश्रौ ८, १०, १०.

! अच्छावाकस्तोत्रीये निस्
३, ४ : २८.

अच्छावाकी(य >)या^c-
-याः बौश्रौ १४, ५ : ३४; -याम्
शाश्रौ ७, ७, ४.

अच्छावाक्य^d- -क्यम् माश्रौ
२, २, ४, ४.

अच्छा √वद्, अच्छा(वदामसि)
शुप्रा ३, १२४; ऋ अच्छावद्
आश्रौ २, १३, ९; आपश्रौ
८, १, ४; माश्रौ ६, २, ५,
२९; वाश्रौ २, २, ४, ९; ३,
१, २, २०; वाधुश्रौ ३, ५० :
१; वैश्रौ ८, ३ : ७; ऋ अच्छा(वद्)
वैताश्रौ २९, १९; ऋ अ २, ५,
८३; १०, १४१; वृदे ५, ८८; ८,
५३; ऋप्रा ७, ६.

अच्छा(च्छ-आ) √वद्, अच्छा-
वदामसि अप्रा ३, १, ७.

अच्छा √वह्, ऋ अच्छा(वहेयुः)^e

या १०, ३.
अच्छे(च्छ, च्छा √इ), अच्छैति
आपश्रौ १६, ६, २; बौश्रौ १०,
५७ : ४; ११, ३ : ३; १२, ७ :
१८; १७ : ३१; २० : १३; १५,
१७ : १९; २२ : ४; ३६ : ३;
१७, १ : ७; १८, २१ : ११; १;
भाश्रौ १, २, ७; माश्रौ १, १, १,
१२; २८; ८, १, ३; २, २, १, ५१;
५५; ५, २, १२, २; ६, १, ५, २८;
वाश्रौ १, ६, १, ५; हिश्रौ ११, १,
६७; ऋ अच्छा(एति) अत्र ५, २७;
अच्छयन्ति माश्रौ २, १, ३,
४८; ऋ अच्छा(यन्ति) वैश्रौ
१८, ५ : १०; वैश्रु २, १० : ४;
अच्छेथ^f बौश्रौ १०, २ : १२;
ऋ अच्छेमः आपश्रौ १६, २, ६;
बौश्रौ १०, २ : १२; माश्रौ ६,
१, १, १२; वाश्रौ २, १, १, ८; वैश्रौ
१८, १ : २१; हिश्रौ ११, १, १६;
ऋ अच्छा... एतु आश्रौ ६, १२,
११; आपश्रौ १३, १८, १; माश्रौ
२, ५, ४, १२; ऋ अच्छा(एतु) शाश्रौ
३, २०, ४; ४, ११, ६; ८, ९,
५; आपश्रौ १३, १८, १; माश्रौ
२, ५, ४, १२; वैश्रौ १६, २२ : ४;
ऋ अच्छ(यन्तु) लुस् १, ८ : १३;
ऋ अ २, ९, १०६; उनिस् ५ :
३४; सा अ २, ४४; अच्छा
(यन्तु) आश्रौ ४, १३, ७;
८, १२, ६; शाश्रौ १०, १२,
१६; १४, ५५, २; सा अ २,
९०४; ऋ अच्छेहि आपश्रौ १६,

२, ५; बौश्रौ १०, २ : ११; वैश्रौ
१८, १ : २२; हिश्रौ ११, १, १५;
अच्छेत वैश्रौ १८, १ : २०;
अच्छेयात्^g माश्रौ २, २, ५, २.

ऋ अच्छे(च्छ-इ) त- -तः आपश्रौ
१२, १, ३; १७, ६, ३; बौश्रौ
१०, ४६ : ३; वैश्रौ १५, १ : ९;
१९, ५ : २८; हिश्रौ ८, १, ३;
१२, २, १५; अप्राय ३,
१.

अच्छे(च्छ-इ)स्य- -स्यः आपश्रौ
७, १, १०.

अ-च्छदिर्-दर्श^h- -र्शे आपश्रौ १५,
२०, २; ८; २१, २; १०;
बौश्रौ ९, १९ : ३; ३४; २० : ५;
माश्रौ ११, २१, २; ८; २२, ६;
१३; हिश्रौ १०, ७, ६; आमिगृ
१, २, ३ : ४; १३; २२; बौगृ ३,
४, २; २२; ३०; भागृ ३, ६ :
३; १६; ७ : १.

अ-च्छन्दस्ⁱ- -न्दसि पा ५, ३,
४९; पावा ४, १, ८६.

अ-च्छन्दस्^j- -न्दसम् काश्रौ २५,
१२, ७; -न्दसा द्राश्रौ ७, १,
३२; लाश्रौ ३, १, ३१.

अ-च्छन्दोम^k- -मम् बौश्रौ २६, २१ :
१०.

अ-च्छन्न-व(न्न >) खा^l- -न्नाम्
वागृ ६, २०.

अच्छभल्ल^m- पाउभो २, ३, ९२.

ऋ अच्छं ब [छम्ब] दकारⁿ- -रम्
आपश्रौ ५, १, ७; हिश्रौ २२,
४, १६; -राय आपश्रु १, १२, ३;

a) षस. उप. = विभज्य प्रहण-। b) वैप १, परि. च द्र. समासान्तस्य प्र. अभाव इति ततो विशेषः। c) विप., नाय.। छ > ईयः प्र. (पा ५, २, ५९)। d) विप.। तस्येदमीयः यत् प्र.। e) तु. वैप १, ३२२ b; वैतु. स्क्र. अच्छ इति कप्र. इति, सा. दु. स्वाअ. इति च। f) सपा. अच्छेथ <> अच्छेइ इति पाभे.। g) अच्छै^o इति पाठः? यनि. शोषः। h) वैप २, ३ खं. द्र.। i) तस.। j) विप.। बस.। k) विप.। तस. > बस.। l) = ऋत्-। व्यु. ?। m) वैप १ द्र.।

हिघ १,४,३.
अ-च्छा(त>)ता^०- त्ते काश्रौ २२, १,२०.
अ-च्छायो(या-उ)पग^०- -गः आपघ २,१८,५^०.
अ-च्छायो(या-उ)पगत- -तः हिघ २,५,५७^०.
अ-च्छायो(या-उ)पयोग^०- -गः बौघ ३,३,१६.
अच्छा-वाक्- प्रघृ. अच्छा ✓वच् द्र.
†अ-च्छिद्यमा (न >) ना^०- -नया आपमं २, ११, १०; आमिघृ २, १,५ : १४; या ११,३१; भाशि ४, ४.
†१अ-च्छिद्र, द्रा^०- -द्रः आपश्रौ ४, १४, ४; बौश्रौ ३, २० : १७; भाश्रौ ४, २०, ५; हिश्रौ ६, ४, १४; आपमं २,९,१४; बौघ १, २,२९; भाघृ २,२४ : ४; हिघृ १, १३,४; -द्रम् आपश्रौ १, ६,४; २,११,१०; १९,२,९; बौश्रौ १, १० : १७; भाश्रौ २, ११, ११; भाश्रौ १,२,४,४; वैश्रौ १२,४ : १६; हिश्रौ १,६, १३; ८, ३१; ६, ४, ८; ११, ६, १९; -द्रया शाश्रौ १०,१६,६^३; काश्रौ ६,१, ३३^३; वाश्रौ १,६,१,३^३; आमिघृ ३, ४, ४ : ५; वैघृ ५, ५ : २४; ७, १ : १२; अप्राय ३, १०^३; -द्रा आश्रौ ५, ९, १^३; शाश्रौ ७,९,१; बौश्रौ १०, ४९ : १८;

१९^३; भाघृ २, ३२ : १६; वैघृ १, १२ : ४; -द्राः माश्रौ २, ३, २, ३२; -द्राणाम् अप २१, २, १६; -द्राणि बौघृ ३, १, २४^६; -द्राम् माश्रौ ५, २, ४, २१; वाश्रौ ३, २, ७, १५; ६२; वैश्रौ ११, ३ : ११; १३; १४; हिश्रौ १३, ८, २१^३; -द्रे आश्रौ ३,३,१; शाश्रौ ५,१७,५; माश्रौ ५, २, ९, ४^६; तैप्रा ४, ११; -द्रेण काश्रौ ७, ३, १; आपश्रौ १,११,९; १०, ७, ११; १९,२,९; बौश्रौ १,६ : २; १२ : ४८; ६,२ : २१; २१, ८ : २२; भाश्रौ १०, ५, २; माश्रौ २, १, १,४०; ५,२, ४, २१; वाश्रौ ३, २, ७, १५; ६२; वैश्रौ ११, ३ : ११; १३; १४; १२, ७ : ११; हिश्रौ ७,१, ३९; १३, ८, २१^३; आघृ १, ३, ३; कौघृ १ ४, ५; शांघृ १, ८, २१; मोघृ १, ७, २३; जैघृ १,२ : ८; द्राघृ १,२, १४; कौसू २,३४.
आच्छिद्रिकी^०- -कीभिः^१ वैश्रौ १७,२ : ८.
†अच्छिद्र-पत्र, त्रा^०- -त्रः^१ आपश्रौ १०,३०, १५; भाश्रौ १०, २१, १४; -त्रा^१ आपश्रौ २, ६, १; भाश्रौ २, ५, १३; वैश्रौ ५, ३ : १०; -त्राणि अप ३५,१,१६.
अच्छिद्र-रयिष्ठ^०- -ष्टे लाश्रौ ७,

५,१३.
अच्छिद्रा(द-अ)स्फाटिता(ता-अ)व-
(क>)का^०- -काः अप २१, २, ३.
२अच्छिद्र^०- -द्रस्य चाअ ३८ : १.
†अच्छिन्न, त्रा^०- -त्रः आपश्रौ ४, १६,४; ६, २०, २; ७, २, १०; १९, २; बौश्रौ ४, १ : २९; ६ : ६३; ६,२६ : २६; भाश्रौ ६,३, ७; ७, १४, १५; वैश्रौ १०, २ : ५; १५ : ५; हिश्रौ ४, १, २६; ४,१९; ६, ६, १७; आज्यो १४, ४^६; -न्नम् आपश्रौ १०, १९, १०; बौश्रौ ६, ९ : १०; २१, १० : २८; भाश्रौ १०,१२,१८; भाश्रौ १,४,३,७^६; २,१,३,१७; वाघृश्रौ-२,२१:४; हिश्रौ १०,३, १६; शांघृ २, १३,५^६; अप्राय ६, २; -न्नस्य काश्रौ ९, १०, १२; बौश्रौ १४,८ : १५; माश्रौ २,४, १, ९; हिश्रौ १०,४, २५; शुअ १,४४९; -न्नाम् शैशि ३५०; -ऽन्नायाम् पाघृ १, १६, ३; वैघृ ६४ : २; शंघ १७.
अच्छिन्न-द(शा>)श^०- -शेन वाघृ १३,१.
†अच्छिन्न-पत्र, त्रा^०- -त्रः हिश्रौ ७, ३,४५^६; -त्रा^१ माश्रौ १,२, ३,२४; वाश्रौ १, ३,१,२४; वाघृ १,१२.
†अच्छिन्न-पयस्^०- -याः आपश्रौ ४,

a) विप. (वत्स-च्छत्री-)। तस. उप. <✓छो। b) तस.>उस.। c) सप्र. षगः <> षगतः इति पाभे.। d) बस. उप. तस.। e) वैप १, परि. च द्र.। f) पाठः? शोधार्थं वैप १ परि. तै ५, ६, ८, ६^३ टि. द्र.। g) नाप.। मत्वर्थीयस्य प्र. लुक् उंसं. (पा ५, २, ६०)। h) नाप. [(अच्छिद्रकारडे [तैत्रा. ३, ७] पठिता-) श्रृच-]। i) °कोभिः इति पाठः? यनि. शोधः (तु. संस्कृतः टि.)। j) विप., नाप च (सोम-, अदिति-)। बस.। k) सपा. अच्छिद्र° <> अच्छिन्न° इति पाभे.। l) पाभे. वैप १ परि. अच्छिन्नपत्रा काठ १,११ टि. द्र.। m) साम-विशेषयोः द्रस.। n) विप.। द्रस.। o) व्यप. (ऋषि-विशेष-)। व्यु. ?। p) सप्र. अस्कन्नमच्छिन्नम् <> स्कन्नविच्छिन्ने इति पाभे.। q) विप. (वासस्-)। बस.। r) विप. (स्थाली-) बस.।

७, २; माथ्रौ ४, ११, २; हिश्रौ ६, २, १७.
 अच्छिन्न-पर्ण-प्रपात^१- -तात् अप ७२, ३, ९.
 अच्छिन्ना(अ-अ)प्र^२- -त्रा: अप ३८, २, ३; -त्रान् अप २१, १, २; -त्रै: कौगृ १, ५, २.
 अ-च्छिन्न-स्तु(का>)क^३- -कस्य माथ्रौ ७, ५, २^d.
 अच्छे, अच्छेत- अच्छ, च्छा ✓इ द्र.
 अ-च्छेदन- -नम् काथ्रौ ६, १, २३.
 अ-च्छेद्य- -द्य: विध २०, ५२; -द्या: अप १९^२, ५, ५.
 अ-च्यवन- -नम् लाथ्रौ १०, ८, ८; ९.
 अ-च्युत, ता^४- -०त विध ९८, ८१; -त: बौथ्रौ ६, १४: १११; २३, १: १६; कौस् ९८, २^३; कप्र ३, १, १०; अअ ६, ८८; तैप्रा ११, १०; -तम् हिश्रौ ११, ७, ५१; वैगृ ४, ११: ७; हिगृ १, २२, १४; २३, १; कौस् ९८, २; विध १, ६०; -ता आथ्रौ २, १३, ७; आपथ्रौ १९, २६, १६; बौथ्रौ १३, ३९: ११; हिश्रौ २२, ६, १२; मागृ १, १४, १०; वागृ १५, २१; कौस् ३५, १२; ९८, २^३; अप ११, १, ११; -ता: हिगृ १, १८, ३; कौस् ९८, २; -तानाम् बौथ्रौ ७, ७: २०; -तानि हिगृ १, २२, १४; -ताय आगृ २, १, ४; ८, १५; पागृ ३, ४,

३; मागृ १, १९: ५; मागृ २, ११, ७; १६, १; हिगृ १, २२, १४; विध ६७, २; -तेन आपथ्रौ ९, ९, ६.
 अच्युत-केश^५- -शम् अप १, ७, ५; ८, ९.
 अच्युत-क्षित^६- -क्षित् आपथ्रौ ७, ५, ६; बौथ्रौ ४, ३: १३; माथ्रौ ७, ५, १; माथ्रौ १, ७, ३, ३४; हिश्रौ ४, २, १४.
 अच्युतक्षित-तम^७- -म: बौथ्रौ ७, ७: २०.
 अच्युत-क्षिति^८- -तये बौगृ २, ८, ९; मागृ ३, १२: १७.
 अच्युत-च्युत्^९- -च्युत् अप ४६, ५, ४.
 अच्युत-पाजस्^{१०}- -जा: वैगृ ५, ४: १२.
 अच्युत-मनस्^{११}- -ना: वैगृ ५, ४: १२.
 अच्युत-शब्द^{१२}- > ष्द-त्व- -त्वात् आथ्रौ ७, १, २०.
 अच्युता(त-अ)क्ष(र>)रा^{१३}- -रा बौपि १, १५: ६९.
 अच्युता(त-अ)चन^{१४}- -०न विध ९८, ७१.
 अच्युत^{१५}- (> आच्युतिक, का, की-पा.) पाग ४, २, १, १६.
 अच्युतन्ति-, अच्युदन्ति- आच्युतन्ति-, ष्दन्ति- द्र.
 ✓अञ् (बधा.), पाधा. भ्वा. पर. गति-क्षेपणयोः; अजन्ति आपथ्रौ १६,

१९, ३; हिश्रौ ११, ६, ३३; अज, > जा आमिगृ ३, ७, २: १२; बौपि १, १७: ३१; ऋप्रा ७, ३१; अजेत् हिश्रौ २२, २, २६.
 अञ्->अञ्-विन्^१- -विनौ, -वी आथ्रौ ६, ५, २.
 अज्विनी^२- -नी आथ्रौ ६, ५, २.
 अजन^३- -न: या १२, २९; -ना: या ४, २५.
 अजन^४- -नम् सु २८, ४; -नस्य सु २३, ६; -नात् या ९, २४.
 अजनि^५- -नि: अप १, १७, १; २; ४; -निम् या ४, १३.
 अजिर, रा^६- पाउ १, ५३; पाग ४, १, १२३; २, ८०; ९०; ६, २, १९३; ३, ११९; -र: बौथ्रौ १७, १८: ५^१; -रम् आथ्रौ ९, ९, ७; अप ४८, १०६; निघ २, १५; -रा आपथ्रौ ४, ७, २; माथ्रौ ४, १०, १; हिश्रौ ६, २, १७; -रा: बौथ्रौ १३, ३८: ८; जैथ्रौ ९, ७; जैथ्रौका ९८; आमिगृ २, ५, १०: १८; अप्राय ६, २; अप ४८, ७६; निघ १, १३; -राय आपमं २, २१, ६; -रेण आथ्रौ ९, ७, ३३.
 अजिर-व(त>)ती^७- पाग ६, ३, ११९.
 अजिरा (र-अ) धिराज^८- -जौ अथ्र ७, ७.
 ✓अजिराय^९, अजिरायते ऋप्रा

a) षस. पूष. कस. । b) विप. । बस. । c) विप. । तस. उप. बस. । d) सपा. अच्छिन्नस्तुकस्य <>अस्तनपूर्वस्य इति पाभे. । e) वैप १, परि. च द्र. । f) बस. । g) नाप. । बस. उप. < ✓क्षि [निवासे] । h) व्यप. (ऋषि-विशेष-) । बस. । i) पाभे. वैप १ परि. अचित्तपाजा: टि. द्र. । j) पाभे. वैप १ परि. अचित्तमना: टि. द्र. । k) व्यप. (ग्राम विशेष-) । व्यु. ? । l) विप. ([प्रेरक-] अग्नि-, अग्निवन्-) । m) विप. (उषस्-) । n) कर्तरि ल्युट् प्र. । o) भावे करणे वा ल्युट् प्र. । p) नाप. । कर्तरि करणे वा अग्नि: प्र. डसं. (पाउ २, १०२) । q) व्यप. (ऋषि-विशेष-) । r) व्यप. (सर्प-विशेष- [=माहेय-]) । s) व्यप. (नदी-विशेष-)

९, १६.
अजिरा-व(त् >)ती^१- ती शांघ
 ३, ३, १०.
अज्म^०- -ज्मः अप ४८, ८९^{१०};
 -ज्मम् या ४, १३^१; -ज्मेषु
 माश्रौ ५, १, ६, ४३^१.
अज्मन्^०- -ज्म निघ २, १७; ३,
 ४; -ज्मन् ऋप्रा १४, ५८;
 -ज्मा^० आपश्रौ १४, १२, १;
 हिश्रौ १०, ६, ९.
अज्म^०- -ज्माः अप ४८, १०६; निघ
 २, १५; -ज्मान् ऋप्रा ४, ६६^१.
आजि^०- पावा ३, ३, १०८; पाउ ४,
 १३१; -जिम् आश्रौ ९, ९, ८;
 काश्रौ १४, ३, २१; आपश्रौ १७,
 १८, १^१; २१, १९, ७; बौश्रौ
 ११, ६ : ३३; ८ : ८^१; १२, ७ :
 ४३; १३ : ९^१; १६, २१ : १०^१;
 १८, २० : १८; ^१माश्रौ १, ३,
 १, ९; ४, २^१; वाधुश्रौ ४, ५ :
 ५^१; ६; वाश्रौ १, ३, ४, ५^१; ५,
 १६^१; ३, १, १, ४५; २, ४; जैश्रौ
 १९ : ११^१; द्राश्रौ ६, २, ११^१;
 १५, ४, ७; लाश्रौ २, १०, ११;
 ५, १२, १४^१; ८, ११, २१;
 आमिष्ट १, २, २ : ४५; बौष्ट ३,
 ९, १२; भाष्ट ३, ११ : १३; हिष्ट
 २, २०, ११; ऋश्र २, १०,
 १०२^१; या ९, १७^१; २३; अप्रा

३, ४, १^१; -जेः शाश्रौ १७, ५,
 ३; या १९; २३^१; -जौ माश्रौ
 १, ५, २, १७^१; वाश्रौ १, ४,
 २, ८^१; ऋप्रा २, ७३^१, निघ
 २, १७; वृदे ८, १२.
आजि-पथ- -थे आपथ १, २४,
 २१; हिघ १, ६, ६९.
आजि-शर- -रेण वाश्रौ ३, १,
 २, २६.
आजि-सूत^१- -सूतः बौश्रौ ११,
 ७ : ३५; ३८; ८ : १२; ९ : १०;
 १२, १३ : ११; १६, २० : २;
 २१ : १२; २५, ३४ : ८;
 -^१सूतः बौश्रौ ११, ८ : ८; १० :
 १; १२, १३ : ८; १६, २१ : १०;
 -सूतयः बौश्रौ ११, ११ : ३;
 वाश्रौ ३, १, २, ४४^१.
आज्य(जि-ञ्)न्त- -न्तः या २,
 १५^१.

१ अज, जा^१- पाग ४, १, ४; ५, ४,
 १३८; -०ज द्राश्रौ १, ४, ७^१;
 लाश्रौ १, ४, ४^१; -जः वैताश्रौ
 २९, ३^१; कौसू ६४, २३^१;
 -जम् अप्राय ६, ७^१; -जया
 आपश्रौ; -जस्य काश्रौ; -^१जा
 आपश्रौ १६, २७, १८^१; २२, ६,
 ७^१; बौश्रौ १०, ३४ : १७^१; १४,
 १५ : १३; १८, १९ : २३^१; हिश्रौ
 ११, ७, ५९^१; ६५; -जाः काश्रौ;

-जात् बौश्रौ २४, ९ : ४; -जान्
 वाश्रौ; -जानाम् लाश्रौ; -जाभ्यः
 द्राश्रौ; -जाम् काश्रौ २६, ५, ८^१;
 हिश्रौ १७, २, ५२^१; -जाय
^१शांघ; -जायाः -जायाम् बौश्रौ;
 -जाये आपश्रौ; -जासः या ६,
 ४^१; -^१जासु बौश्रौ २, ५ : १३;
 २३, १४ : १६; -जे जैश्रौ; -जेव
 काश्रौ; -जौ अप.
१ आज^०- -जम् बौश्रौ २८, १३;
 ४; -जस्य अशां ११, ३; -जे
 आश्रौ; -जेन आष्ट १, १९, १०.
आजी^०- -जी शुभ २,
 ४७; -जीम् शुभ २, १८.
आजा(ज-ञ्)विक^१- -कानि
 कौसू ५७, १२.
आजक- पा ४, २, ३९.
१ आज्य^१- -ज्येन काश्रौसं ३६ :
 ८.
अज-कर्ण- -र्णे काश्रौ २५, ४, ४.
अज(क >)का- > अजिका^१- पा
 ७, ३, ४७.
अज-कृणाजिन-लोमन्^१- -मभिः
 वैश्रौ १८, १ : ६०.
अज-क्षीर^०- -रम् बौश्रौ १०, ४७ :
 १५; माश्रौ ६, २, ४, ३;
 हिश्रौ २३, २, ३५; -रे बौश्रौ
 १३, ७ : ४; हिश्रौ २२, २,
 १८; -रेण बौश्रौ १९, ४ : २४;

a) विप. (स्थूणा-)। पशुदासे प्रतिप्रसवो दीर्घस्य उभं. (पा ६, ३, ११९) । b) सपा. ?स्थ अजिरावती
 <> स्याद्, इरावती <> आस्ताम्, इरावतीम् <> अस्या इरावतीम् <> स्थिरावती इति पामे. । c) वैप १,
 परि. च द्र. । d) पाठः ? सपा. निघ २, १७ अज्मन्-> -ज्म इति । e) पामे. वैप १ परि. अज्मम् ऋ ३, २, १२
 टि. द्र. । f) पामे. वैप १ वाजम् मा २, ७ टि. द्र. । g) पामे. वैप १ परि. आजौ काठ ७, १२ टि. द्र. । h) विप.
 उस. । i) सृग्भ्यः इति पाठः ? यनि. शोधः । j) नाप. (झग-)। घ्यु. ? । k) पामे. वैप १ परि. अजा तै ४,
 २, १०, ४ टि. द्र. । l) गजम् इति पाठः ? यनि. शोधः (तु. संस्कृतुः टि.) । m) सपा. अजा <> अजाम् इति
 पामे. । n) ज्माम^० इति अच्यु. । o) विप. । सास्यदेवतीयो वा तस्येदमीयो वा अण् । p) नाप. (अज-देवत्या-
 ऋच्-) । q) विप. । द्रस. । r) नाप. (अजा-पयस्-) । विकारे यञ् प्र. उसं. (पा ४, ३, १६०) । s) प्राग्वीयः
 कः प्र. । t) द्रस. उप. षस. ।

माश्रौ ६, १, २, २२; वाश्रौ २, १, १, ४८; २, ३, ३; हिश्रौ १२, ३, ४; २४, १, २२.
 अज-त्व^a- त्वम् वाधूश्रौ ४, ५०: २.
 अज-ध्या^b- पा ५, १, ८.
 अज-धेनु^c- न्वा: १, ५०, ५.
 अज-पथ^d- पा, पाग ५, ३, १००.
 अजपथिक- पावा ५, १, ७७.
 अजपथ-शङ्कुपथ- श्राभ्याम् पावा ५, १, ७७.
 अज-पद^e- पा ५, ४, १२०.
 अज-पशु^f- श्रु: शां ३, १४, ३.
 अज-पाद^g- पा ५, ४, १३८.
 अज-पूर्णपात्र^h- श्राभ्याम् द्राश्रौ १२, ४, १६; लाश्रौ ४, १२, ११.
 अज-महिष-गो-पालⁱ- ल: वैध ३, १४, ५.
 अज-मांस- सेन अशां १३, ४.
 अज-मेघ^j- धेन वाधूश्रौ ४, १९: ३१.
 अज-लोम^k- मै: बौश्रौ ९, ३: ७; १०, ५: ३.
 अज-लोमन्^l- मभि: काश्रौ १६, ३, १७; आपश्रौ १६, ४, १; माश्रौ ६, १, २, ३; वाश्रौ २, १, १, ३४; हिश्रौ ११, १, ४४; -मानि काश्रौ १६, ३, १४; आपश्रौ १५, २, १; बौश्रौ ९, १: ५; १७: १०, १: ४; भाश्रौ ११, ३, १५; वाधूश्रौ ४, १०४: ११; हिश्रौ २४, १, १०.

अजलोम-संसृष्ट¹- दानि वैश्रौ १३, २: ३.
 अज-वशा²- शया बौश्रौ १४, १५: १; -शया: बौश्रौ २३, ७: १; -शायाम् बौश्रौ २०, २५: ५.
 अज-वाह³- (> आजवाह-, आजवाहक- पा.) पाग ४, २, १३३; १३४.
 अज शिरस्- -र: माश्रौ ६, १, ७, ३१; वैताश्रौ २९, ३.
 अज-शृङ्ग- ज्ञेण जैग २, ५: १३.
 अजशृङ्गी^k- ङ्गी अश ४, ३७; ङ्गीम् अशां २१, ५.
 आजशृङ्ग^l- ङ्गम् अशां १९, ८.
 अज-सप्त-दशन्- -श वैश्रौ १७, ११: ११.
 अज-स-तुन्द^o- पा ६, १, १५५.
 अज-हित^p- -त: माश्रौ २, ५, ५, २८.
 अजा-क्षीर- -रम् काश्रौ १८, १, १; आपश्रौ १९, १२, २४; -रे आपश्रौ १५, १८, १०; भाश्रौ ११, १८, ११; -रेण आपश्रौ १६, ६, १; १७, ११, ३; वैश्रौ १९, ६: ३५; हिश्रौ ११, १, ६६.
 अजाक्षीरा(र-अकृ >)क्ता¹- -क्तया अश ३५, १, १४.
 अजा-गल- -लम् माश्रौ २, ३, १, १५.
 अजा(ज-आ)दि² पा ४, १, ४.
 अजा-नाश- -शै काश्रौसं ३६: ९.
 अजा-पयस्- -य: काश्रौ २६, १, ३; आपश्रौ १५, १०, ३; भाश्रौ ११,

१, १९; माश्रौ ४, १, ९; वैश्रौ १३, १२: २; हिश्रौ २४, ४, ५²: -यस: आपश्रौ १५, १०, ४; भाश्रौ ११, १०, १; माश्रौ ४, १, ११; -यसा काश्रौ १६, ४, २३; २६, १, २८; ५, १६; आपश्रौ १५, ४, १०; भाश्रौ ११, ४, ११; माश्रौ ४, १, २९; वैश्रौ १३, ६: ५; -यसि वैश्रौ १३, ६: ८.
 अजा-महिषी³- ष्यो: गौध १७, २१.
 अजामहिषी-क्षीर- -रे विध ६६, १३.
 अजा-मुख- -खे याशि १, ८.
 अजा-वर्जम् शंघ १५५; ४२४; ४२५.
 अजा(जा-अ)वि^k- -वय: आपश्रौ ६, २७, ३१; बौश्रौ २८, ६: १५; वाधूश्रौ ४, ९६: ६; ७; वैश्रौ २०, ३५: ६; हिश्रौ ६, ७, ८¹; ऋश्रौ ६, २, १; ७, ३, १; ऋश्रौ २, १०, १; ३, ३, १; ऋश्रौ २, २, ६; ४, ५²; ऋश्रौ ३, ३, १; ७, २; काश्रु २७, ३¹; भाश्रु १, २७: ८¹; हिश्रु १, २९, १¹; अश १, ६, १; वाध १७, ४४; आपध २, १४, १३; हिध २, ३, २४¹; शुप्रा ५, ३५¹; -विभ्यम् बौध १, ५, १३०; -विभ्याम् काश्रु ३६, १४; माश्रु १, १८, ८; पा ५, १, ८; -विषु गौध १२, २२; -वीनाम् वाधूश्रौ ४, ९६: ७-

a) वैप १ द्र. । b) नाप. (यूथी-) । c) नाप. । कस. (पा २, १, ६५) पूष. पुंवङ्गावक्ष ।

d) न्वा इति पाठः? यनि. शोधः । e) नाप. । षस. । f) उपमाने बस. । g) नाप. । कस. ।

h) द्रस. । i) द्रस. > उस. (तु. C.; अजा-महिषी-गो-पाल- इति रङ्गा. पाभे. । j) नाप. । उस. उप.

अधिकरणे षञ् प्र. । k) वैप १, परि. च द्र. । l) विप. । तृस. । m) व्यप. (देश-विशेष-) । n) विप.

(मणि-) । तस्येदमीयः अण् प्र. । o) व्यप. (नगर-विशेष-) । p) विप. (अभि-) । 'अजः (= अजबलिः) हितः

(= दत्तः) अस्यै' इति बस. ? ।

अजावि-लोमन्- -ज्ञाम् आप्रथौ
१९, ६, ८; हिथ्रौ २३, १, १७.

अजाविलोम-पवित्र- -त्रेण
काथ्रौ १९, २, १२.

अजावि-वासो-वर्ज- -दक्षिण^३-
-णः वैथ्रौ १७, ११ : ९.

अजाव्य (वि-अ)पहारिन्- -री
विध ५, ७८.

अजा(ज-अ)विक, का^३ पाग २, ४,
११; -कम् बौथ्रौ २४, ५: १९;

वाध १२, ३; शंघ ३०५; विध ५,
१४४; वृदे ३, १४७; ५, ६४; -के
नाशि १, ५, ३; -केषु शंघ ३२२.

१अजा(ज-अ)श्च^८- -०श्च या ४,
२५^३१.

२अजा(ज-अ)श्च^३- -श्चम् विध २३,
४०; -श्चाः वाध २८, ९.

अजै(ज-ए)डक^३- पाग २, ४, ११.

२अज-

१अज(एक-पाद्)- -०ज (-पाद्)
आपथ्रौ ५, १५, ६; ६, २, १;

हिथ्रौ ३, ४, ३८; -जः(-पाद्)
शाथ्रौ ६, १२, २५; आपथ्रौ ५,

१९, ४; ११, १५, १; १३, १६,
३; बौथ्रौ ६, २९ : २१; वैथ्रौ

१४, १३ : ८; १६, २० : १;
हिथ्रौ ३, ५, ५; १०, ३, ४२; जैथ्रौ

१३ : २१; आमिण्ट २, ६, ३ : ८;

कप्र २, १, १२; अप १, ४, ७;
४१, ४; ४३, ५, १२; ४८, १४३;

अशां ११, ४; बौध २, ५, १९;
वृदे २, ११; निघ ५, ६; या १२,

२९; ३०; ३२; ३३; वेज्यो ३४;
-जम्(-पाद्) वाधुथ्रौ ४, ६१ :

६; -जाय(-पदे) पाग २, १५, २.
अजै(ज-ए)क-पाद्^१- -पाद्म् शंघ

११६ : ६०.

३अज^{०११}- पाग ४, १, ९९; १०५; -जाः^६

ऋअ २, ९, ८६; चाअ १७ : ९;
साअ २, १७३; -जानाम्^६ आथ्रौ

१२, १४, ४; बौथ्रौप्र ३७ : १.
२आज^३- -०ज बौथ्रौप्र ३७ : २.

आजायन- पा ४, १, ९९.
२आज्य- पा ४, १, १०५; -०ज्य

आथ्रौ १२, १४, ४; आपथ्रौ २४,
९, ४; -ज्यानाम् आपथ्रौ २४,

९, ४.
अज-वत् आपथ्रौ २४, ९, ४; बौथ्रौप्र

३७ : २.
अजकाव^१- -वम् काथ्रौ ९, २, ६^१.

अजग^६- > अजग-व^१- पा ५, २, ११०.

अज-गन्ध- > आजगन्धि- -न्धयः
बौथ्रौप्र १५ : २.

अजगर^३- -रः आपथ्रौ १६, ३४, ४^१;
वैथ्रौ १८, २१ : ३७^१; हिथ्रौ

११, ८, १५^१; बौग ३, १०, ६^१;

अप ६८, ५, ८; शंघ ३७७;
१९; शुभा ५, ३७^१३; -राः अप्रा

३, ४, १^१३; -रे बौथ्रौ २, ५;
१२^१; -रेण अप्राय ५, ६.

१अजगाव^०- -वः^३ बौथ्रौ १७, १८ : २.

२अजगाव^१- -वम्^१ आपथ्रौ १२,
१, ११; वैथ्रौ १५, २ : ६; हिथ्रौ

८, १, २२^३.
अ-जड^३- > अजडा(ड-अ) पोगण्ड-
धन^१- -नम् गौध १२, ३४.

अजथ्या-, १अजधेनु- १अज- द्र.
२अजधेनु^८- (> आजधेनव- पा.)

पाग ४, १, ९६.
अ-जन-वाद्-शील^६- -लः आपथ १,

३, १३; हिध १, १, ८६.
?अजनाथ्रीयम्^१ शांग ६, २, ६.

अ-जन्म (न्म-ऋ)र्क्ष^१- -र्क्षे वैगृ ४,
७ : १.

अ-जप^३- -पः गौध ६, १३; -पम्
आमिण्ट २, ५, १ : २.

अ-जपत् - -पन्तः अप ४१, ३, ४.
अजपती, न्ती- -त्याम् जैगृ १, २० :

१७^१; -न्त्याम् गोगृ २, १, २०^१.
अ-जप-न्युङ्ख-सामन्^३- -मसु पा

१, २, ३४.
?अजमनीम् शंघ ११६ : ६०^४.

अजमार^८- (> आजमार्य- पा.)
पाग ४, १, १५१^१.

a) विप. (वाजपेय-) । द्रस. > बस. > बस. । b) द्रस. । c) वैप १, परि. च द्र. ।

d) कस. । e) व्यप. (गोत्रप्रवर्तक-ऋषिविशेष-, प्रवर-विशेष- वा) । व्यु. ? । f) पाभे. २अभ्याज्य- द्र. । g) बहु. <

२आज-, २आज्य- । h) अपत्येऽर्थे अण् प्र. (पा ४, १, ११४) । i) नाप. (पात्र-विशेष- [तु. माश ४, १, ५, १९]) । व्यु. ? (तु.

वैप १, ६१ k टि.) । j) सपा. °कावम् <> °थावम् इति पाभे. । k) अर्थः व्यु. च ? । l) नाप. (धनुर्विशेष-) ।

m) नाप. (सर्प-विशेष-) । व्यु. ? (तु. पपा. अनवग्रहः) । n) सपा. अजगरः <> अजगावः इति पाभे. । o) नाप.

(सर्पराज-विशेष-) । व्यु. ? । p) आजगावत् इति पाठः ? यनि. शोधः । q) तस. । r) द्रस. > षस. । पोगण्ड-
= अशङ्क- । s) विप. । तस. उप. षस. > बस. । t) विप. (मण्डल-) । स्वरूपम् ? । अ-जना^० इति
? संस्कृतः भाष्यम् जनानी^० (जनैर्लोकेषु ऋथीयं मुख्यं स्तुत्यम्) इति नारायणः (१६१) । अजिरानीयं इति शोधः ? ।

u) विप. । बस. । v) सपा. अजपत्याम् <> अजपन्त्याम् इति पाभे. । w) तस. > द्रस. । x) आयुर्मनः इति
द्विपदः शोधः (तु. अपु २१९, २०) । y) पाका. अजमारक- (> आजमारक्य-) इति पाभे. ।

अजमीढ^a- वाः^c आपश्रौ २४, ८, २.
आजमीढ^b, ल्ह- -०ढ आश्रौ
 १२, १३, १; आपश्रौ २४, ८, ३;
 बौश्रौप्र २० : ३; वैध ४, ३, ५^d;
 -ल्हम् आश्रौ १२, १३, १.
अजमीढ-वत् आपश्रौ २४, ८, ३;
 बौश्रौप्र २० : ४; वैध ४, ३, ५^d.
अज-भेघ- १अज- द्र.
अज-र, रा^b- पा ६, २, ११६; -^फरः
 या ६, ३; -रम् आपश्रौ ३,
 ९, १०^फ; हिश्रौ २, ५, ११^फ;
 या ४, २७^फ; ७, २५^फ; १३, ५^फ;
 -रा विध ३०, ४६; -^फराः
 आपश्रौ; -राणि आपश्रौ ३, १५,
 ५^f; -राम् हिश्रौ ११, ८, ९;
 -^फरासः आपश्रौ; -रे आपमं २,
 २०, ३१; -०रे पागृ ३, ३, ५;
 -^फरेभिः आपश्रौ १४, २९, ३;
 हिश्रौ १५, ७, १६; अप्राय ५, ६;
 -रेभ्यः या ३, ९^फ; -रौ कौस्
 ६८, २६^फ.
अजरा(र-आ)दि^b- दीनाम् अप्रा
 १, २, ६.
अ-जरण-धर्मन्^b- र्माणम् या ४,
 २७.
^फअ-जर(त>)न्ती^b- न्तीम् आश्रौ
 २, १, २९; शाश्रौ २, २, १४.
अ-जरस्^b- रसम् बौपि १, २ : १३.
अ-जर्य¹- पा. पावा ३, १, १०५.
अज-चत् ३अज- द्र.
अज-वा, वास्ति- (> आजव [, व]

स्तेय- पा.) पाग २, ४, ६३^f;
 ४, १, १२३; १३६.
अ-जस्, स्ना^b- पा ३, २, १६७; पाग
 १, १, ३७; -^फसः आपश्रौ ६,
 २८, १२^k; बौश्रौ १४, ३: १४^g;
 १९: ४०^k; माश्रौ १, ६, ३, ५^k;
 हिश्रौ ३, ८, १२^k; हिपि २२ :
 ५^k; या १४, २; -^फसम्¹
 आश्रौ; या १४, ४; -^फसया
 अप्राय ६, १; शुप्रा ४ ७६; -न्नाः,
 -न्नाणाम् बौश्रौ २७, ५ : १: ११:
 ३; हिपि २०: १; -न्नाणि बौध २,
 २, ७६; -न्नान् बौश्रौ; -^फसाम्
 मागृ २, ७, ४; -न्ने वैगृ ६, १५: ६;
 -न्नेषु आपश्रौ; -^फसैः आश्रौ.
आजस्त्रिक^m- काणि बौश्रौ २८,
 १३: २०; -क्नेषु बौश्रौ २८,
 १३: १९.
अ-जहाति^b- तेः शौच २, ४६.
अजागर्तिबहुलौषधि^o आमिगृ ३,
 ५, ५ : २; बौपि ३, २, ८.
अ-जात- -तः वैश्रौ ७, १३: ११;
 -तस्य आपश्रौ ४, १६, ३;
 ६, १९, २; -तान् वाध १०,
 ३; बौध १, १०, ३४; -तेषु
 बौश्रौ २०, २०: ४०; द्राश्रौ ६,
 ३, १०: ११; लाश्रौ २, ११, ४; ५.
अजात-दन्त, न्ता^b- न्तम् वैगृ ७,
 २: ६; -न्तासु शंघ ३५९; -न्ते
 शंघ ३६०.
अजात-पुत्र^b- -त्रः शाश्रौ २, १२,

११; बौश्रौ २८, ८: ६; भाश्रौ
 ४, २१, ७; वैश्रौ २, ८: ४; हिश्रौ
 ६, ४, २; ६, १७.
अजात-लो(मन् >)न्नी^b- न्नीम्
 पागृ २, ७, ९; -न्त्या गोपृ ३,
 ५, ३; जैगृ १, १९: २३; द्रागृ
 ३, १, ३२.
अजात-व्यञ्ज(न >)ना^b- न्ना कप्र
 ३, ९, ४.
अजात-शत्रु^b- -शुः आश्रौ ४, १२,
 २^फ; वाधुश्रौ ४, ७५: १६;
 -^फश्रुम् शाश्रौ ९, १४, ३; ऋअ
 २, ५, ३४.
अजात-संस्कार^b- रे आमिगृ २,
 ७, ४: ४.
अ-जाति- -तेः पा १, २, ५२; -तौ
 पा ३, २, ७८; ९८; ५, ४, ३७;
 ६, ४, १७१; -त्या पा २, १, ६८.
अजा-तौल्वलि^b- पावाग २, १, ६९.
अजा(ज-अ)द्^b- > आजाय- पा ४,
 १, १७१.
अ-जानत्- -नतः जैगृ २, २: ८; ९;
 अप २८, १, २; वाध ३, ६; बौध
 १, १, १२; -नति काश्रौ ३, ५,
 ३; १२, ४, १७; -नन्निः बौश्रौ
 २७, ४: २६.
अजानती^f- ती सु १०, १.
अ-जानान- -नः विध ५, १६४;
 -नस्य शाश्रौ २, ५, १.
अ-जानिक^b- (> आजानिक्य-पा.)
 पाग ५, १, १२८.

a) व्यप. (गोत्रप्रवर्तक-ऋषिविशेष-). b) वैप १, परि. च द्र. c) बहु. < आजमीढ-। d) *मि^o
 इति पाठः वावि. e) पाभे. वैप १, ८८२ m टि. द्र. f) पाभे. वैप १ परि. अजरस्य कौ २, ३३३ टि. द्र.।
 g) विप. बस. h) विप.। तस. > बस. i) तस.। j) अजस्तयः प्रसृ. बहु. < आजवा, वास्तेय-।
 k) पाभे. वैप २, ३३३. तैत्रा २, ५, ८, ९ टि. द्र.। l) क्वचित् वा. क्विवि. द्र.। m) विप. (कर्मन्-). तत्रमवीयष
 ठम् प्र. (पा ४, ३, ११)। n) तस.। उप. < √हा [त्यागे]। o) विप. (अत्रकाश-). पाठः ? (तु. सपा. बौपि
 १, ४: २ ? अजागर्तबहुलौषधिम् इति पाठः, यत्र संस्कर्तुः टि. अनाखुगर्त^o इति शोष स चेहापि?)। p) व्यप. (मुनि-
 विशेष-). q) व्यप. (राज-विशेष- वा तदीयजनपद-विशेष- वा)। r) विप. (कद्रु-). s) वैप १, ६५ f टि. द्र.।

अ-जाप्य- -प्यम् जैगृ २, ९ : २.
 अ-जामदम्- -नानाम् आश्रौ १२,
 १०, ७.
 अ-जामदग्न्य- -ग्न्यः आपश्रौ २,
 १८, २; आश्रौ २, १७, ७; वाश्रौ
 १, १, १, ३०; हिश्रौ २, २, १०.
 अ-जामि^१- -मयः आश्रौ ५, ७, ३;
 शाश्रौ ७, ६, ३; ऋप्रा २, ४६;
 -मि द्राश्रौ ९, ३, ११; लाश्रौ
 ३, ६, ३१; लुस् २, ९ : ९; निस्
 १, १२ : २५; २६; २, ८ : ११;
 २५; ६, १० : २२; ८, ६ : १५;
 ९, १ : ३३; ५ : १९; १० : ३४;
 या ४, २०^१; १०, १६.
 अजामि-करण^२- -णः निस् २, ८ :
 २५; -णानि निस् १, १३ : १;
 ११.
 अजामिकरणा(ए-अ)र्थ^३-स्व-
 -त्वात् मीस् १०, ८, ६१.
 अजामि-कर्मन्- -मणि या ४, २०.
 अजामि-कल्प- -ल्पः निस् ७, १२ :
 २१^१; १०, २ : १९; -ल्पम् निस्
 १, १३ : १५; -ल्पे निस् १०,
 २ : ३९.
 अजामि-त्व- -त्वम् मीस् १०, ८,
 ६८.
 अजाम्य(मि-अ)र्थ^४- -र्थः निस् ८,

९ : ३६; ९, १० : ३२; ११ :
 १५; १२ : ३०; १०, १ : २६;
 -र्थम् निस् ८ : १२, १७; ९,
 १ : ५२; ६ : ३१; १० : ४२.
 अ-जायमान^५- -नः हिश्रौ १४, ४,
 ३८^१; -ने आश्रौ २, १६, ३; ३,
 १४, १४.
 अ-जित^६- -०त् विध ९८, ५४; अप
 १, २५, ३^६; -त्तः वाध २०,
 २८^१; -तम् शंघ ११६ : ३६;
 -ताः हिगृ १, ७, १०^१.
 अ-जित्-पर^७- -रः शुप्रा १, १६७.
 अजिन^८- पाउ २, ४८; पाग ४,
 १, १२३; २, ९०; -जिनम्
 वागृ ५, ९^१; -नस्य आमिगृ २,
 ७, १ : १२; -नात् पावा ४, ३,
 ६०; -नानि शाश्रौ; -नाभ्याम्
 लाश्रौ; -ने हिश्रौ; -नेन आगृ.
 आजिनिय^९- पा ४, १, १२३.
 अजिन-फ(ल)ला^{१०}- पावा ४, १,
 ६४.
 अजिन-वासिन्^{११}- -सिने वाधूश्रौ ३,
 ९८ : १.
 अजिना(न-अ)न्त^{१२}- -न्तस्य पा ५,
 ३, ८२.
 अजिनीय- पा ४, २, ९०.
 अजिन^{१३}- (>आजिनीय^{१४}- पा.)

पाग ४, २, ८०.
 अजिनमोयि^{१५} हिपि १४ : १२.
 अजिनमौ^{१६} आमिगृ ३, ८, १ : १९;
 वौपि १, १४ : १७.
 अजिर- ✓अञ् द्र.
 अजिर^{१७}- (>आजिरिय-, अजिरिय-
 पा. यथाकमम्) पाग ४, १,
 १२३; २, ९०.
 अजिर^{१८}- (आजिरि^{१९}- पी.) पाग ४,
 २, ८०.
 अजिरावती- ✓अञ् द्र.
 अ-जिह्वा- -ह्वः वाध १०, २७; विध ३,
 ९६; -ह्वम् हिश्रौ २, ४, २३; गौध
 २३, ११; -ह्वस्य विध ८१, २३.
 अ-जिह्व^{२०}- -ह्वे वौश्रौ २४, ८ : १८.
 अजीगर्त^{२१}- पाग ४, १, ९६; -र्तः
 शाश्रौ १५, २१, १^२; २४, १^५;
 -र्तम् शाश्रौ १५, १९, १; -र्तस्य
 वाध १७, ३२^२.
 आजीगर्ति- पा ४, १, ९६; -र्तिः
 शाश्रौ १६, ११, २; ऋअ २, १,
 २४; साअ १, १५; १७; २६;
 १५३; १६३; १८३; २१४; ५८९;
 २, ६०६; ७६५; ९३५; १००४;
 -र्तैः चाअ १६ : १५.
 अ-जीज^{२२}- -जान्^{२३} पाग ३, १, २^१.
 अ-जीजि^{२४}- -जिम्^{२५} पाग ३, १, २^१.

a) वैप १, परि. च द्र. । b) विप. । उस. उप. कर्तरि कृत. । c) विप. । बस. । d) तस. ।
 e) ष्तेति इति पाठः? ष्तः(ः), इति चेति शोधः । f) सप्र. आपध १, २४, २१ अपजित्य इति, गौध २२, ७
 अपचये इति, मनुः ११, ८० अवजित्य इति च पाभे. । g) नाप. । h) पाभे. वैप १ परि. अ-दीनाः मा ३६, १४
 टि. द्र. । i) तस. उप. बस., तत्रापि पूव. ऊर्ध्ववर्णस्य संज्ञा । j) नाप. (सुगादि-चर्मन्-), व्यप.
 च । वैप १ द्र. । k) वाजि^{२६} इति पाठः? यनि. शोधः । l) व्यप. । m) नाप. (ओषधि-
 विशेष-) । n) विप. । उस. उप. <✓वस् (आच्छादने) । o) अर्थः व्यु. च? । p) =देश-विशेष-? ।
 q) अर्थः व्यु. च? । नमोयि<>नमौ इति पाभे. । r) व्यप. (ऋषि-विशेष-) । व्यु. ? (वैतु.
 वैप १, ६१ n, ० टि., यत्र यनि. शोधः) । s) तस. । उप. नैप्र. <*जिर्थ-<*जिर-[भाप. <
 ✓जू]+ मत्वर्थे यः प्र. उसं. [पा ४, ४, १२८] । t) पाभे. वैप १ परि. अजीतान् टि. द्र. । u) =अ-जीति- ।
 तस. । उप. नैप्र. <*जिर्थ-<*जिर-[भाप. <✓जू]+ स्वार्थे यिः प्र. उसं. [पा ५, ४, २५] । v) पाभे.
 वैप १ परि. अजीतिम् टि. द्र. ।

अ-जीत,ता^१-तः बौश्रौ १८, ४५ : ११; -ता^१ वाश्रौ १. ५, ५, ७^b; आपमं २, ५, २०^c; पाउर, २, २^b; आमिष्ट १, १, ४ : १३^c; भाग १, ९ : १८^c; जैष्ट २, ३ : ६^b; -तान्^b तैप्रा ११, १०^१; -ताम् आग्य १, १३, ५.

अ-जीति^२-तिम्^b बौध २, ६, १३^१.

अ-जीर्ण,र्णा^३-र्णम् या १३, ५; -र्णया बौश्रौ २७, ७ : ६; अप २२, ९, २; -र्णा पाग्य ३, ३, ५^१; काशु ७, १२; -र्णे^d वाध १३, ३१; विध ६४, ३; ६८, ९.

अजीर्ण-भुक्त^e-क्तः शंघ ८९.

अजीर्ण-वत्-वान् शंघ ३७६.

अजीर्णिन्-र्णी शंघ ३७७ : १८; विध ३०, २१.

अ-जीवत्-वन्तः वाध २, २२; -वन्तौ शंघ २४८.

अ-जुषि-पर^f-रौ^g अप्रा १, १, ५.

अ-जुष्ट-ष्टम् या १२, ५^१.

अ-जुह्वत्^h-ह्वत् माश्रौ १, ५, १, २५; -ह्वत्तः आपश्रौ ७, २८, ८; आमिष्ट ३, ९, १ : ४; वौषि २, ५, १; हिपि २१ : १६; गौषि १, १, २७.

†अजुह्वती-तीः बौश्रौ २६, ९ : २२; २३.

?अ-जूⁱ-जुवः शाश्रौ ८, २५, १^१.

अ-जूर्य^j-र्ण्यौ बौश्रौ १४, ७ : १३; २६, ७ : १५; वाधुश्रौ ४, १०२ : २४.

अजैकपाद्-२अज-द्र.

अज्जू-पाउभो २, १, १११.

अ-(ज >)ज्ञा->ज्ञ-क->ज्ञका-,
°ज्ञिका- पा ७, ३, ४७.

अ-ज्ञात^k-पाग ५, ४, २९; -तम् माश्रौ ३, ११, १^१; कौस् ११९, २^१; अप ७२, ४, ३^१; बौध ४, ५, ७; विध ५१, २७; -ताय बौश्रौ २, १६:५१; १७ : ७:४५; -ते पा ५, ३, ७३; -तेषु बौश्रौ २९, १३ : १६.

अज्ञात-क- पा ५, ४, २९.

अज्ञात-प्रायश्चित्त^l-त्तम् अप ७२, ४, ३.

अज्ञात-मृत^m-तानाम् वौषि २, ८, १.

अज्ञाता(त-अ)रुस्ⁿ-रुः कौस् ३१, २१.

अ-ज्ञाति^o-तिम् वैष्ट ७, ६ : १.

अ-ज्ञाति-धना (न-आ) ख्या^p-
-ख्यायाम् पा १, १, ३५.

अ-ज्ञात्वा काशु ७, ३१.

अ-ज्ञान^q-नम् बौश्रौ २, ५ : १५^१; २९, ८ : १२; -नात् बौश्रौ २९, ८ : १३; अप २, ४, ४; ४, २, ९; १०; वाध २७, ४; शंघ ३६२; बौध २, २, ६७; -ने वाध २०, १९.

अज्ञान-कृत-तेभ्यः बौध ३, ५, ५.
अज्ञान-तमस्^r-मसि या १४, ७.
अज्ञान-तस् (:) शंघ ४४०; विध ५३, ६.

अज्ञान-निन्दा^s-न्दा या १, १७.

अज्ञान-पूर्व^t-र्वम् गौध २०, ८.

अज्ञाना(न-अ)ध्यापन^u-नात् गौध २१, १२.

अ-ज्ञाना(न-अ)र्थ^v-र्थस्य पावा ६, १, ४९.

अ-ज्ञायमान-ने शाश्रौ ३, २१, ६.

अ-ज्ञेय-०य विध १, ५५.

अज्म-, अज्मन्-√अज् द्र.

अज्यमान-√अज् द्र.

?अज्यस्ति^w बौश्रौ १८, ४७ : १९.

अ-ज्यान-नम्^x माश्रौ १, ६, ४, २१^१.

अ-ज्यानि,नी^y-नि^z काग्य ४४, ४; -निम् बौश्रौ १६, २९ : १३;

३० : ६; ऋपाग्य ३, १, २; बौध २, ६, १३^१; तैप्रा ११, १०^१;

-नीः आपश्रौ ६, २९, १२; १७, ९, ४; बौश्रौ ३, १२ : ५; १६;

१०, ४६ : ९; २०, २२ : ९; २४, ३३ : २; ७; वाश्रौ १, ५, ५, ७;

ऋवैश्रौ ८, २ : ८; १९, ६ : ७;

हिश्रौ ३, ७, ८; १२, २, २५;

वौषि ३, ९, ३; -नीम् वाश्रौ १, ५, ५, ७^१;

-नीनाम् बौश्रौ २०, २२ : ८; -नीभिः काग्य ५३, ३.

a) वैष १, परि. च द्र. । b) पाभे. वैष १ परि. द्र. । c) पाभे. वैष १ परि. अदीनाः टि. द्र. ।

d) नाप. (लभुक्काजीर्णोपलक्षित-जमन्दाग्नि-) । e) विप. । बस. । उप. भाप. । f) तस. । उप. बस. । g) -रे इति पाठः ?

यनि. शोधः (तु. संस्कृतुः टि.) । इह अग्नीषोमौ [शौ ६, ६१, ३] इत्युदाहरणं द्र. । h) तस. ।

i) षस. । j) कस. । k) नाप. । l) तस. > द्रस. > षस. । m) बस. । वा. क्विवि. ।

n) द्रस. । o) तस. > बस. । p) पाठः ? (तु. संस्कृतुः टि.) । q) पाभे. वैष १ परि. अ-ज्यानिम्

तै ५, ७, २, ३ टि. द्र. । r) नाप. (इष्टका-विशेष-) । तस. उप. < √ज्या । s) बस. । वा.

क्विवि. । णिन्म् इति पाठः ? म् > च इति लैवि. इति कृत्वा यनि. शोधः (तु. संस्कृतुः टि., प्रकृते स्थले अ-कृतु- इति च) ।

अ-ज्यायस्- -ःयः आपश्चौ ३, १, २;
 बौश्री १, १७ : २७; भाश्री ३,
 २, ७; वैश्री ६, १० : ११; हिश्री
 २, ३, १.
 अ-ज्यैष्ठिनेय^०- -येन गौध २८, १६.
 अञ- ✓अञ् द.
 अ-ज्वरि^०- -रेः पा २, ३, ५४.
 अज्विन्-, ँनी- ✓अञ् द.
 ✓अञ्च्, अञ्चति-, अञ्चती-,
 अञ्चना-, अञ्चल-, अञ्चति-
 ✓अञ्च्, ँच् द.
 ✓अञ्ज् (बधा.)^०, पाधा. ह्या. पर.
 व्यक्तिप्रक्षणकान्तिगतिषु; अङ्क्ते
 आपश्चौ १८, १४, ५^{१५}; ८^{१५}; पाय
 २, ६, २७^{१०}; अनक्ति काश्री ७,
 २, ३१^{१०}; बौश्री ६, २ : १६^{१०};
 आमिष्ट २, २, ५ : १०^{१५};
 ऋञ्जते साञ्च १, ५६४^{१६};
 या १२, ७; अञ्चन्ति या ८,
 १८^{१५}; अनञ्जि कौस् ६४, १७^{१५};
 अञ्जमः आपश्चौ ७, १०, १^{१५};
 कौस् ४२, १७; ऋप्रा १४, ५४;
 ऋञ्चन्तु आपश्चौ; अङ्क्ताम् शुप्रा
 ६, ३०^{१५}; ऋञ्चन्तु आपश्चौ;
 ऋञ्चक्ष्व^१ आश्री २, ७, ५;
 माश्री १, १, २, २९; ऋञ्चिध
 आपश्चौ; अञ्चिध भाश्री; अञ्चयात्
 आपश्चौ.
 आनञ्च बौश्री १४, १४ : ३०;
 ऋञ्चिः आपश्चौ १५, १२, ७;

बौश्री ९, १२ : १५; काश्रीसं
 ३५ : ९^१.
 अञ्चयति गोष्ट ४, २, २८.
 २अक्त, क्ता- पाठ ३, ८९; -क्तः
 बौश्री १०, ४ : ११^{१५}; -क्तम्^१
 आपश्चौ ३, ६, १; बौश्री १,
 १९ : २०; भाश्री ३, ५, १४;
 वैश्री ७, ५ : १२ हिश्री २,
 ४, १२; गोष्ट १, ८, २६; द्राष्ट २,
 १, २६; -क्तया, -क्तस्य आपश्चौ;
 -क्ता भाश्री ७, ११, १५; -क्ताः
 माश्री; -क्तात् या ७, १४; -क्तान्
 काश्री ५, १०, ६; -क्तानाम् माश्री
 १, ५, ३, १८; -क्तानि वैगृ ५, ३;
 २५; -क्ताभ्याम् अप ३५, २, ३;
 -क्तम् माश्री ४, ३, ३३; हिश्री
 ४, ३, ३८; शांष्ट ३, २, ५; -क्तासु
 वैश्री ११, १० : ६; -क्तं
 आपश्चौ; -क्तेन माष्ट १, २२, २;
 -क्तेषु काश्री ५, १०, ९; -क्तौ
 काश्री.
 अक्ता(क्त-अ)श्च^१- -श्चः हिश्री ७,
 १, ३९.
 अक्तु^१- पाठना १, ६५; -क्तुः अप
 ४८, ७४; निघ १, ७; -क्तुभिः
 आपश्चौ ५, ६, ३; हिश्री ३, २,
 ५५; आपिन्ष्ट ३, ४, १ : १५;
 बौपि १, ४ : १०; १५ : ४;
 अप्राय ६, १; या १२, २३^{१५};
 -क्तोः या ५, २८^{१५}.

अक्तवा^१ काश्री.
 अङ्क्त्वा^१ आपश्चौ ३, २, ४; ९, ७;
 ६, १४, २; ७, १२, १४; १८,
 १४; बौश्री ४, ६ : १७; ५८;
 भाश्री ३, ८, १३; ७, १४, १०;
 २२, १; वैश्री २, ९ : ११; हिश्री
 २, ५, १२; ३, ७, १०९; ४, ४,
 १५; ५, ४४; ९, ८, २९; ११,
 ३, ५; २४, ५, १; आप्यष्ट ७, १३;
 हिष्ट १, २, ११.
 अज्यमान^१- -नः या १४, १५^{१०};
 -नम् आपश्चौ ४, १२, ३; भाश्री
 ४, १८, १; वैश्री ७, ६ : १; हिश्री
 ६, ३, ११; -नान् आपश्चौ ४,
 ८, १^{१५}; १२, ३; भाश्री ४, १७, ६;
 हिश्री ६, ३, ११; -नाय, -ने
 आपश्चौ; -नी भाश्री ४, ११, ३.
 ऋञ्चत्^१- -ञ्चत् या ३, २०;
 -ञ्चन्तम् वाधुश्री ४, १५ : ४;
 -ञ्चन्तौ बौश्री ११, २ : १५.
 अञ्चन^१- पाठ ५, २, ६२; ६, ३,
 ११७^{१५}; -नम् शाश्री १, १०, २;
 ४, १६, ६^{१५}; काश्री २०, १, ८;
 आपश्चौ ७, २७, ३; आपिन्ष्ट १,
 ३, १ : ५; ७, १ : १; २, ३, ५ :
 ३; १६; ३, ६, ४ : ४; भाष्ट २,
 १ : २; ११; १८ : ५; वैष्ट ४,
 ६ : ७; ७, ६ : ५; गोष्ट ४, २,
 २८; गौपि २, ६, १२; अप ४,
 १, १५; २३, ५, ३; ३३, ७, १;

a) तस. । b) तस. । उप. <✓ज्वर । c) या १, ९, ७, १४ पा ७, २, ७१; ७४; पावा
 ८, २, ४८^२ इत्यत्रायं परामुष्टः द्र. । d) पाठः ? आ^० इति शोधः (तु. C. I ZDMG ५७, ७४२]) ।
 e) पाठः ? आ^० इति शोधः (तु. सप्र. माश्री ३, १, ३, १५ आनक्ति इति) । f) पाठः ? उनक्ति इति शोधः
 (तु. सप्र. हिष्ट २, ६, ६) । g) अञ्च^० इति पाठः ? यनि. शोधः (तु. कौ ?) । h) सपा. अङ्क्ष्व <> आङ्क्ष्व
 इति पाठे. । i) अजीः इति पाठः ? यनि. शोधः (तु. सपा. तैत्र्या ४, १०, ४) । j) पाठे. वैप १ परि. अक्तः
 तै ४, १, ४, २ टि. द्र. । k) पाठे. वैप १ परि. अक्तम् मा २, १६ टि. द्र. । l) विप. (यजमान-) । बस. ।
 m) वैप १, परि. च द्र. । n) वैभाषिको नलोपः (पा ६, ४, ३२) । o) पाठे. वैप १ पृथुमानः कौ २, २१०
 टि. द्र. । p) व्यप. (पर्वत-विशेष-) । q) वैतु. ? C. आञ^० इति पाठं संकेतुकः ।

३५, २, २; ३; कप्र २, ८, ५;
शुभ्र १, २३९; -नस्य माश्रौ
१, १, २, २९^०; कौगृ ४, २, ३^०;
याशि २, १०८; नाशि २, ८,
२०; -नात् या १३, १२; -ने
वौश्रौ २०, २६ : ४६; द्रागृ ३,
५, २०; -नेन वाश्रौ ३, २, ६,
१८; अप १, ४५, ४; १८, ३, १;
विध-२३, ५६.
अञ्जनक- पा ५, २, ६२.
अञ्जन-कर्मन्^८ - र्मणि वृदे ७,
१२.
अञ्जन-कोश^९ - शम् कौगृ १,
८, ४^०.
अञ्जन-दन्तधावन-दधि-सक्नु-
मधु-व्यञ्जने(न-इ)क्षु-बदरी-
फल^१ - लानिवैगृ ४, ४ : १२.
अञ्जन-प्रभृति- -ति माश्रौ ५,
२, १२, १०; वैश्रौ १०, ८ : १४.
अञ्जन-संकाश^६ - शः अप ६२,
४, २.
अञ्ज(न >)ना-गिरि^८ - पा ६,
३, ११७; ऋत ४, ७, १०.
अञ्जना(न-आ)दि- -दि आश्रौ
६, १४, ११; काश्रौ ८, ८, १३;
आपश्रौ ७, १०, ५; वाश्रौ १,
६, ३, २४; ३, २, ६, १६; -दिः
मीस् ५, २, ७; -दिना आम्रिगृ
३, ११, २ : १३.
अञ्जना(न-अ)नुलेपन^१ - नम्
पागृ २, १४, १७; ३, ३, ११.

अञ्जना(न-अ)भ्यञ्जन^१ - नम्
वाध ५, ९; -ने गोगृ ४, ४, १२;
जैगृ २, २ : १६.
अञ्जनाभ्यञ्जन-प्रभृति- -ति
कौगृ ५, ७, ३.
अञ्जना(न-अ)भ्यञ्जन-गन्ध-पुष्प-
धूप-दीप^१ - पान् कौगृ ३, १४,
१०.
अञ्जना(न-अ)भ्यञ्जना(न-अ)-
नुलेपन^१ - नम् अप ११, १, ९;
१३, १, ६; १६, १, ८.
अञ्जयित्वा आश्रौ १, ७, १; वैगृ २,
१३ : ९.
अञ्जलि^१ - पाठ ४, २; -लयः अप
४१, १, ९; -लिना आश्रौ;
-लिनाम्^१ गौपि १, ७, ३; -लिम्
आश्रौ; -लिपु हिपि ११ : ११;
-ली आगृ १, २०, ४; -लीन्
शाश्रौ १६, १, २; कौगृ २, २, ७;
-लेः पा ५, ४, १०२; -लौ
शाश्रौ १, १५, १०; -ल्योः मागृ
१, ११, ११; कौस् ७८, १३.
अञ्जलि-कृत^१ - तः गोगृ २,
८, १; १०, १६; ४, ३, २१; -तम्
द्रागृ २, ४, २०.
अञ्जलि-पूर्ण^१ - र्णम् आश्रौ ८,
१४, ६.
अञ्जलि-प्रस्त^१ - तानाम्
काश्रौ २०, १, ४.
अञ्जलि-संसिक्त^१ - क्तम् वैश्रौ
१५, १३ : ९.

अञ्जस्^१ - ऋजः^१ लुस् २, १० :
१८; ११ : ८; ३, ५ : ३; -ञ्जसः
लाश्रौ ६, १२, १०^१; पावा ६,
३, ३; -ञ्जसा आश्रौ ४, ५,
३^१; ५, ११, १; शाश्रौ ५, ८,
२^१; वौश्रौ ६, १६ : ९; १९ :
५^१; २५ : ४; वैश्रौ १२, २० :
१२; द्राश्रौ १४, २, ३^१; लाश्रौ
५, ६, ६^१; वैताश्रौ १३, १८^१;
कौगृ १, २, ३^१; शागृ १, ६,
५^१; बौपि १, ७ : ३^१; हिपि
६ : ९^१; अशां ३, १^१; वृदे-४,
१३०; पाग १, १, ३७.
अञ्जसा(सा-अ)य (न >)नी^१ -
-नी भाशि २०; -नीभिः, -न्यः
वाधुश्रौ ६, ७५ : २८.
अञ्जस्-पा^१ - पाः उस् ८,
१९; ऋप्रा १३, ३०; -पाम् शैशि
१२५.
अञ्जः (, स)-सव^१ - वः वौश्रौ
२६, ३ : १; वाधुश्रौ ३, ४१ :
२०; २१; -वम् शाश्रौ १५,
२३, १.
अञ्जः-सव-कारीरी^१ - -री
वौश्रौ १३, ४० : ६; १०^१;
-वै वौश्रौ २३, ४ : १७.
?अञ्जस्सवाहाम्^१ वाधुश्रौ ३,
४१ : १८.
अञ्जा(न >)ना- -नाः आपश्रौ
१७, १८, १^१; आगृ ४, ६,
१२.

- a) सपा. आपश्रौ १, ९, १५ आञ्ज^० इति पाभे. । b) सपा. शांगृ ४, १५, ११ आञ्ज^० इति पाभे. ।
c) मध्यमपदलोपी कस. । d) नाप. । षस. e) सपा. शांगृ १, १२, ४ आञ्ज^० इति पाभे. । f) द्वस. ।
g) विप. (मेघ-) उप. =सदृश- इति कृत्वा लृस. । यद्वा नित्यसमासः (=अञ्जन-सदृश- इति) । h) वैप
१, परि. च द्र. । i) नामि दीर्घाऽभावः उंसं. (पा ६, ४, ३) । j) विप. । बस. । k) द्वस.
उप. =परिमाण-विशेष- (तु. पंजा. लप) । l) लृस. । m) नाप. (साम-विशेष-) । धा. अर्थः ? ।
n) नाप. (सोमयाग-विशेष-) । बस. । वैप २, ३खं. द्र. । o) नाप. (इष्टि-विशेष-) । कस. । p) सपा.
अञ्जःसव <> सव इति पाभे. q) पाठः ? सवः, अहानाम् (<अह- [तु. वैप १]) इति द्वि-पदः शोषः ? ।

अञि^{१०} - पाउश्वे ४, १४९; -ञि आपश्रौ १७, १८, ११; -ञिञ्म शांश्रौ १६, ३, ३६; माश्रौ ५, २, १०, ४३; वैताश्रौ ३६, ३०.
 ञञि-सक्थ^{११} - क्यः शुप्रा ३, ८१; -क्याय बौश्रौ १५, ७: ११.
 अञ्ये (ञि-ए) त, ता^{१२} - ताय आपश्रौ २०, ६, ४; ११, १३; बौश्रौ १५, ७: १०; हिश्रौ १४, २, ३; -तायै बौश्रौ १६, २६: १२.
 अञिञ- पाउभो २, १, ७८.
 अञिण्णु- पाउना ४, २.
 अञ्जति [नि, लि] क^{१३} - (> अञ्जति- [नि, लि] क्य- पा.) पाग ५, १, १२.
 ✓अट् पाधा. भ्वा. पर. गतौ; चुरा. पर. अनादरे [तु. BPG].
 ✓अटाव्य पावा ३, १, २२.
 अटाव्या- पावा ३, १, १०१.
 अटनि- पाउभो २, १, २१२.
 अटवि- पाउभो २, १, २३६.
 ✓अट्ट, पाधा. भ्वा. आत्म. अतिक्रम- हिसयोः, चुरा. पर. अनादरे ।
 अट्ट^{१४} - > अट्ट-स्थ (ल>) ली^{१५} - (> आट्टस्थलक- पा.) पाग ४, २, १२७.
 अट्टणार - > अट्टणार^{१६} - रः तैप्रा १३, १२१.
 ✓अड् पाधा. भ्वा. पर. उद्यमे ।
 अड्^{१७} - अडि ऋत ३, ६, २; ४, १, ३.
 अडा, णडा|रक^{१८} - (> आडा, णडा|रकि- अडा, णडा|रक- पा.) पाग २, ४, ६९^{१९}.

अड्^१ - पाउनावृ १, ८३. [=आड्]
 ✓अड् पाधा. भ्वा. पर. अभियोगे ।
 ✓अण्(बधा.) पाधा. भ्वा. पर. शब्दे ।
 अणि^१ - > अणि-मत् - मत् आपश्रौ ७, २४, ६; ७; बौश्रौ ४, ६: ५८; ८: ६; ९: ४; ९; माश्रौ ७, १९, ६; बौश्रु २: ११; ३: १७; -मतः बौश्रु २: ११; -मति आपश्रौ ७, ११, ९; बौश्रौ ४, ४: ४०; माश्रौ ७, ९, ५.
 अणिमत्-करणी^२ - ण्याम् बौश्रु ३: ३२.
 अणु^३ - पाउ १, ८; ९; पाग ५, १, १२२; ४, ३; २९; -णवः बौश्रौ २४, ५: १६; अप ५२, ७, २; बौध १, ५, ८६; बौश्रु १: २; तैप्रा १३, १२१; भाशि ६३१; -णु लाश्रौ ९, १०, ५^४; वृदे ८, १४०; शुप्रा १, ६०; ऋत २, ५, १; -णुः शांश्रौ १७, १, ८; बौश्रौ २०, १: १४; कप्र २, ६, ५; या ६, २२; -णुभिः बौश्रौ १९, १०: ३४; भाशि १२०; -णुम् आपश्रौ ३, १, ९; माश्रौ ३, १, २; माश्रौ १, ३, ३, ५; वाश्रौ १, ३, ५, ४; वैश्रौ ६, ११: ४; हिश्रौ २, ३, ९; -णून् कौस् १४, १९; अप ४६, १, ४; -णूनि आपश्रौ १, २१, ७; बौश्रौ १, ७: १६; माश्रौ १, २, २, ३३; वाश्रौ १, २, ४, ७०; हिश्रौ १, ५, ९१; -णोः वैश्रु २, १८: १२; ३, १६: १२१.
 अण्वी^५ - ण्यः निघ २,

५; अप ४८, ८२.
 अणव^६ - वम् याञि १, १२.
 अणिमन् - पा ५, १, १२२; -मानम् बौश्रौ १८, ३०: ८; वाधुश्रौ ३, १०५: १.
 अणिमा(म-आ)श्रौ(दि-ए)श्वर्यं - प्रापण^७ - णम् वैध १, ९, १३.
 अणिष्ट, ष्ट^८ - ष्टः आपश्रौ १, ५, १०; माश्रौ १, ५, ८; वाश्रौ १, २, १, ३१; हिश्रौ १, २, ६२; आम्रिण् २, ३, १: १०; वृदे २, ३२; -ष्टम् भाश्रौ ७, १९, ७; -ष्टा ऋप्रा १७, ४८; -ष्टाः बौश्रौ १७, ५०: ८; भाश्रौ ९, ६, २; हिश्रौ १५, १, ७६; तैप्रा १३, १२१; -ष्टान् काश्रौ १५, ३, ३०; २५, ४, ३८.
 अणिष्ट-म(ध्य>)ध्य^९ - ध्या पि ३, ५७.
 अणोयस्^{१०} - यः वैश्रौ १०, १९: १; हिश्रौ ४, ५, ८; या २, ३१; -यसः माश्रौ १, ८, ५, १९; वाश्रौ १, ६, ७, २; -यसि हिश्रौ ४, २, ७०; -यांसम् भाश्रौ ७, २, ८; माश्रौ १, ८, २, २७; वैश्रौ १०, २: ७; हिश्रौ ४, १, ३१; -यांसौ बौश्रौ १७, २८: १२; १३; -णोयान् आपश्रौ १, ५, १०; ७, ३, २; माश्रौ १, ५, ८; माश्रौ १, १, ५२; वाश्रौ १, २, १, ३१; हिश्रौ १, २, ६२; आम्रिण् २, ३, १: १०; ऋवैश्रु २, १८: १२;

a) वैप १, परि. च द. । b) बप्रा. । इह = अम्यङ्, उद्वर्तन- इति विशेषः । c) मत्वर्थीयष् ठन् प्र. इति पागम. । अञ्ज- तिका- इति पाका. । d) = इट्ट (तु. नभा., MW.) । e) व्यप. (देश-विशेष-) । f) नाप. (पाद- मर्धाय-) । वावि. <अर्ध- । g) व्यप. (गोत्रप्रवर्तक-ऋषिविशेष-) । h) ष्टा [पागम.], ष्टा [पाका.], आडा [आएडा.] इति पाभे. । i) नाप. (जल-तरणी-) । j) विप. नाप. च । धा. सौम्ये वृतिः । k) नाप. । कस. पूष. पुंवद्भावः । l) पाभे. वैप १, ११६२ । टि. द्र. । m) विप. । स्वार्थे अण् प्र. । n) बस. > कस. > षस. । o) विप. । बस. ।

३, १६ : १२; आपध १, २३, २;
हिघ १, ६, १०.

अणीयसी- स्तीम् माश्रौ
१, २, ४, १; वाश्रौ १, ६, ३, २२;
-यस्याम् काठश्रौ ५४.

अणीयस्-त्व- -त्वात् या १, २.
अणु-क^०- पा ५, ४, ३: २९.

अणु-ता- पा ५, १, १२२; -ता
तैप्रा २, २, ९.

अणु-त्व- पा ५, १, १२२; -त्वम्
आशि ८, २०; -त्वस्य याशि १,
११; -त्वात् या ११, ३१.

अणु-प्रमुख^०- -खानि निसू ३,
१ : ५.

अणु-मात्र, त्रा^०- -त्र अत्र ४७,
३, १९; -त्रः कौशि ७८^३; -त्राः
तैप्रा १९, ३; शौच ३, ६५.

अणु-मात्रक- -कः कौशि ९.

अणु-मात्रा^०- -त्रया नाशि २, ४,
६; -त्रा शुप्रा १, ६१; -त्रामिः
अप ४७, २, ७.

अणुमात्रिक- -कः कौशि १८;
-कम् कौशि ७४; नाशि २, ४, ३.

अणु-मिश्र^०- -श्रान् माश्रौ २, ५,
१, ३५.

अणु-शस् (:) गोश्र ४, २, १२;
भाशि ११११^१.

अणु-शेष- -षः नाशि २, २, १८.

अ(णु>)णू-का(ण्ड>)ण्डा^०-

-ण्डा हिश्रौ ७, ५, २५^१.

अणू√भू>अणू-भाव- -वात्
या ९, १९.

अणूभाव-कर्मन्^०- -र्मणः या
६, ३०.

आणि, णी^०- पाउभो २, १, १६८;

-णिः वाश्र १५, १३; या ६,
३२^३कृ; -णी आपमं २, ४,
१५; काश्र ४१, १८^१; माश्र १,
१३, १७; -णौ अप ४८,
१०५; निघ २, १७.

आणि-वत् बौश्रौ ११, ६ : २६;
१२, ७ : ३७.

√अण्, पाधा. दिवा. आत्म. प्राणने ।
[=√अन्].

अण^०-> १अण्ड(ण-ड)^०- पाउ
१, ११४; पावाग ६, ३, ४२;

-ण्डम् सु ३, ३; -ण्डयोः आम्रिग
३, ४, २ : ११; ५, ७ : ११;
वैश्र ५, ४ : ३३; बौपि १, ६ : ७;
३, ३, १२; हिपि ६ : ५.

अण्ड-कपाल^०- -ले वाधूश्रौ
४, ३३ : १३.

अण्ड-ज^०- -जः अप २, ५, १;

-जम् सु २, ५; ३, १; -जाः वृदे
८, ११५; -जानाम् अप ६५,
२, ४.

अण्डा(ण्ड-आ)दि- -दिषु
पावा ६, ३, ४२.

अणक- (>अणकीय^१- पा.) पाग
४, २, ९०.

अणिक^१- -कः आपध १, १९, १; हिघ
१, ५, १०३.

अ-णि(<नि)काष^१- -षम् आपश्रौ
२, ११, ३; भाश्रौ २, ११, २.

अणिमत-, अणिमन्-, अणिठ-,
अणीयस्- √अण् (बधा.) द्र.

अणीव^०- पाग>आणीवेय- पा ४,
१, १२३; -याः बौश्रौ १०:१.

१अणु- √अण् (बधा.) द्र.

२अणु^०- -णौ^० शाश्रौ १२, २४, ११^१.

३अणु^१- (> २आणव-, आणवक-
पा.) पाग ४, २, १३३; १३४.

?अणुहोद्भ्याः^० लाश्रौ ९, १०, ५.

अणूक, का^१- कम् आपशु ११, ३;
हिशु ४, ४; -कस्य आपश्रौ ७,
२५, ६; -काः आपशु २०, १६;
हिशु ६, ५७.

अणूक-मा(त्र>)श्री^१- -भ्यः आपश्रौ
१६, १३, ६; वैश्रौ १८, ११ : २३;
आपशु ११, २; हिशु ४, ३.

√अण् पाधा. भ्वा. आत्म. गतौ ।

२अण्ड- (>आण्डायन^१- पा.) पाग
४, २, ८०.

अण्डर^१- (> √अण्डराय, अण्डरी-
पा.) पाग ३, १, १२; ४, १,
४१.

अण्डारक- अण्डारक- द्र.

a) प्रकारवचने च, निपुणे च यथायर्थं कन् प्र. । b) विप. । बस. । c) पाठस्मृतितत्वाद् दुर्बोधः ।

d) कस. । e) विप. । तृस. । f) अणु^० इत्यपि मुको. । g) वैप १, परि. च द्र. । h) वैप १,

६३६६ टि. द्र. । i) नाव. (पक्षिन्-) । उस. । j) व्यर. (देश-विशेष-?) । k) अर्थः व्यु. च? । =पुत्राच्छ्रुतप्राहिन्-

(पुत्राचार्य-) इति हरदत्तमहादेवौ, अन्ये तु ऋणिक- (=ऋणस्य दातृ-) इति पाभे. (तु. भाष्यम्) । l) तस. उप.

=घर्षण- । वा. क्वि. । णत्वम् उस्सं. (पा ८, ४, ३) । m) व्यप. (प्रवर-विशेष-) । व्यु. ? । n) नाव.

(स्त्री-योनि-) । व्यु. ? । o) =सपा. शौ २०, १२६, २ । खि ५, २२, २ तु णू [सप्त१] इति पाभे. (वैतु. C.

मुष्कौ इत्यस्य विप. इति कृत्वा ?अण->यनि. [द्वि२] इतीव?) । p) पाभे. पृ ८ j टि. द्र. ।

q) =अणूक- । नाव. (पृष्ठवंशास्थि-, [तदुपचरित-] परिमाण-विशेष-, तत्प्रमाणेष्टका- च) । r) विप. (इष्टका-) ।

s) अर्थः व्यु. च? ।

√अत्^a, पाधा. भ्वा. पर.सातत्यगमने;
 अतति निघ २, १४.
 १अतन- नम् या ५, ३.
 अतन-वत्- वन्तम् या ५,
 १०^b.
 २अतन^c- ना: या ४, १३.
 १अतमान- ना: ऋप्रा २, ४३.
 १अतिथि^d- पाठ ४, २; -थयः
 आपध १, १४, १; २, ७, ५; विध
 ५९, २९; हिध १, ४, ३५; २,
 २, २६; -०थयः आपधौ १२,
 ३, २१; हिश्रौ ८, १, ४१; -थये
 जैगृ १, १९: ४७१; विध ६७, ४५;
 -थि: आश्रौ ४, ७, ४; शाश्रौ ५,
 १०, ३२१; बौश्रौ २८, २: ४३;
 ४६; वैश्रौ १, १८: ३; कौगृ ३,
 १०, २२; ३५^e; शांगृ २, १६, ४;
 आमिगृ २, ६, ५: २०; आपगृ
 ३, ९; बौगृ १, २, ६५; ३, ३, २, ९,
 ३; १७; भागृ ३, १४: २६; गोगृ
 ४, १०, २४; अप्राय ३, ११;
 वाध ८, ७^f; ८; ११, १२; १३१;
 शंध १३३; १३५; आपध २, ६, ३;
 ५; ७, १२; १३; १५; १७; ८, १;
 विध ६७, ३१; ३३; ३४^g; हिध २,
 १, १०२; २, ३; ५; ३२; ३४; ३६;
 गौध ५, ४१; अत्र ९, ६(३)१;
 १५, १११; ११या ४, ५४; १४,
 २९; भाशि ११७; १२०१;
 १-थिभि: गोगृ १, ४, २; -थिभ्यः
 शाश्रौ २, ३, २५; ३, ८, १०; पागृ
 २, ९, १५; भागृ ३, १५: ९;
 वैगृ ६, १७: ७; आपध २, ८, ३;
 विध ६७, ३९; वैध १, ५, ४; हिध
 २, १, १०४; -थिम् आश्रौ ४,

१३, ७; ७, ८, १; १२, ६; ९, ८, १०;
 शाश्रौ १४, ५७, ९; १७, ८, ११;
 आपधौ ५, २५, ५; बौश्रौ २,
 १४: १३१; १०, १७: ११; २६,
 ३१: ८; भाश्रौ ५, १६, १४;
 वाश्रौ १, ५, ३, १५; हिश्रौ ६, ५,
 २१; जंश्रौ २४: ५१; निस् १,
 ३: २०१; कौगृ ३, १०, २१; ३५;
 शांगृ २, १६: ३; बौगृ २, ९, १;
 भागृ ३, १४: २५; मागृ २, १२,
 २१; वैगृ ३, ७: २६; ६, १८:
 ६; वाध ८, ४; ९, ७; ११, ६; शंध
 १५९: ६; आपध २, ८, १४;
 विध ६७, २९; ३०; ३५; हिध २,
 १, ११६; ऋप्रा १६, २३; -थिन्
 पागृ २, ९, १२; आमिगृ २, ६, ५:
 १; गौपि २, ५, १२१; आपध २,
 ४, ११; ७, १६१; २५, ८; बौध
 २, ३, १८; ७, १९; ३, ३, २०;
 विध ७३, ३०१; ९१, ६; वैध १,
 ४, २; ७, ५; ६; २, ४, ६; ३, १, ३;
 हिध २, १, ६४; २, २, ३५; ५,
 १८६, अत्र ९, ६(५)१; -थिनाम्
 बौश्रौ ६, ६: १९; आपध १, १५,
 १, २, ७, २; ८, २; हिध १, ४,
 ६०; २, १, १०३; २, २३; अत्र ९,
 ६(२); -०थे या ५, १९; -थे:
 बौश्रौ ६, १७: २१; आपध २,
 ७, ३; हिध २, २, २४; पा ५, ४,
 २६; -थौ मीत् ९, १, १०.
 १आतिथेय- पा ४, ४, १०४.
 १आतिथ्य, ध्या^h- पा ५, ४,
 २६; -थ्य: बौश्रौ ६, १८: ३२;
 २५, ९: ६; १०: ८; -थ्यम् काश्रौ
 ८, १, १; आपधौ १०, ३०, ५;

८१; ३१, १०; बौश्रौ ६, १६: १८;
 २०; ११७: १-३; १८: १; २०; ९,
 ५: ११; १०, २३: २; ११, २:
 ७; १२, ७: ६; १७: १९; १५,
 १७: ३; १७, २३: ४; १८,
 २१: ३; ३२: ४; ४३: १०; ५०:
 ८; २१, १३: ५; २५, ९: १४;
 ३३: १०; २६, ३२: ११; भाश्रौ
 १०, २१, ५; ७१; २२: ८; भाश्रौ
 ५, २, १४, २७; वाधूश्रौ २, १०:
 ६; ८; ४, ३२: ७; ५२: १;
 ५३: १; ५७: १; २; वैश्रौ १२,
 २१: १११; १२; २२: ९;
 हिश्रौ ७, ३, ४०; ६२; आमिगृ २,
 ५, १: ७; आपगृ ७, २५; जैगृ १,
 १९: ४७; २, ९: १; वाध ४,
 ८; शंध १३५ⁱ; १३८; काध
 २७०: ३; भाशि ५६१; -थ्यया
 आपधौ १६, १७, ५; बौश्रौ २६,
 २८: ७; जैश्रौ ३: ११^j; -थ्यस्य
 बौश्रौ ६, १८: २; २१, १३: १;
 ४; १०; १५; १७; २५, १०:
 १४; -थ्या आश्रौ ४, ५, १;
 शाश्रौ ५, ७, १; ९, २४, ६;
 बौश्रौ २४, १८: १४; २५, १०:
 ६; १२; भाश्रौ १०, २२, १३;
 हिश्रौ ७, ३, ६८; -थ्या: वैश्रौ
 १२, २२: १२; अत्र ९, ६;
 -थ्याम् बौश्रौ २४, १७: १२;
 ३३: १६; २६, ३२: ७^k; दाश्रौ
 १४, २, १; लाश्रौ ५, ६, ४; -थ्याय
 माश्रौ २, १, ५, १; -थ्याया:
 आपधौ १०, ३०, १; ११, १, ११;
 १६, २१, ११; बौश्रौ २५, १०:
 ५; २६, ३२: ६; १०; भाश्रौ १०,

a) या ३, १५; ४, २५ इत्यत्राऽयं परामृष्टः द्र. । b) पाठः? (तु. अंततः वैष १, १४ ० टि.) ।
 c) कर्तरि कृत् । d) वैष १, परि. च द्र. । e) बप्रा. । विप. नाप. च (इष्टि-विशेष-, अस्तिथि-सेवा-
 प्रसू.) । तादर्थ्ये न्यः प्र. । f) ध्यात् इति पाठः? यनि. शौचः (तु. मूको.) ।

२१, १; १२, १, १; २, ८; वैश्रौ
१४, १ : १; हिश्रौ ७, ३, ३१;
४, २; ११, ६, ५१; -ध्यायाम्
आपश्रौ १०, ४, १०; ११^२; २२,
९, २१; बौश्रौ १८, ३७ : ८; २४,
३३ : १६; माश्रौ २, १, १, १९;
२, १, १५; वैश्रौ १२, २१ :
८; हिश्रौ १७, ४, १६; जैश्रौ
२४ : ४; जैश्रौका ४६; द्राश्रौ
१, ३, २; २, २, २४; लाश्रौ
१, ३, १; ६, २२; वैताश्रौ १३,
१३; -ध्ये शुश्र ४, १७३; -ध्येन
बौश्रौ ९, ५ : ११; १०, २३ :
२; १२, ७ : ६; १७ : २०; १५,
१७ : ३; १७, २३ : ४; १८,
२१ : ३; ४३ : ९; वैश्रौ १८,
१४ : १९.

आतिथ्य-शेषा(ष-आ)

दि^a - दि काश्रौ १७, ३, १७.

आतिथ्य-हविष्कृत्^b -

-कृतः काश्रौ १७, ३, ९.

आतिथ्या-परिधि^c -

-धीन् हिश्रौ ७, ८, ४.

आतिथ्या-पर्यन्त- -न्तम्

शाश्रौ १५, १३, २.

आतिथ्या-प्रभृति- -तीनि

हिश्रौ ११, ७, १.

आतिथ्या-बर्हिर्-उपसद्^d -

-सदाम् आपश्रौ ११, २, ११.

आतिथ्या-बर्हिस्^e -

-र्हिः आपश्रौ ११, १६, ४; वैश्रौ

१४, १४ : २; हिश्रौ ७, ८ : ८.

अतिथि-कल्प^f - -ल्पः कौस् ९२,

३२^२.

अतिथि-कुमार-व्याधित-गर्भिणी-
सुवासिनी-स्थविर^d - -रान् गौध
५, २६.

अतिथि-देवता-> ल्य- -त्यम्
या ७, ४.

अतिथि-धर्म- -मेंण विध ६७,
३६.

अतिथिधर्मिन्- -र्मिणौ विध
६७, ३७.

अतिथि-पति- -तिः अत्र ९,
६ (१; ६).

अतिथि-पूजक- -के विध ९९,
१८.

अतिथि-पूजन- -नम् कप्र २, ३,
३; विध ५२, २५; -नात् विध
६७, ४४; -ने विध ६७, २८.

अतिथि-पूजा-गुरुपूजा-

संनिपात^e - -ते हिश्रौ ३, १, ६.

अतिथि-प्रिय^f - -यः आमिगृ २,
७, १० : ११.

अतिथि-मत्- -मन्तौ आश्रौ ४,
५, ३.

अतिथि-वत् आपगृ ३, ७; बौगृ
१, १, २४; आपध २, ४, २०;
हिध २, १, ७३; मीस् ९, १, ६.

अतिथि-व(त् >) ती- -त्या
हिश्रौ ११, ५, ५; -त्यौ बौश्रौ
२८, २ : ४२.

अत्क^g - पाउ ३, ४३; -त्के ऋप्रा
१४, ४७^१.

अत्न- पाउ ३, ६.

अत्य, त्या^h - -त्यः बौश्रौ १५, ७ :
१३; आपमं २, २१, २२; अप
४८, ९३^२; ऋअ २, ९, ४३; निघ

१, १४; -त्याः या ४, १३^३;

-त्यासः आश्रौ २, १८, १६.

अत्, द^h (> अद् √ धा पा.) पाग १,
४, ६१.

अ-तच्-छब्दⁱ - -ब्दः मीस् १, ४, १०.

अ-तज्जातीय-व्यवाय^j - -यात् पावा
१, १, ७.

अ-तत्-प्रकृति^k - -त्व- -त्वात् मीस्
१०, २, ३८.

अ-तत्-प्रधान^k - -त्व- -त्वात् मीस्
४, ३, २.

अ-तत्-संस्कार^k - -त्व- -त्वात्
मीस् ६, ५, २४.

अ-तत्-संस्कारा(र-अ)र्थ^l - -त्व-
-त्वात् मीस् ६, ४, ४६.

अ-तथा-योनि^k - -नि मीस् ७, २, १८.

अ-तथो(था-उ)त्पत्ति^m - -त्तेः कौस्
६३, १६.

अ-तद्- -तत् या ३, १३.

अ-तद्(द्-अ)न्त^k - -त्व- -स्वम् मीस्
१०, ६, ४४.

१अ-तद्-अर्थ^k - -र्थानाम् मीस् १,
२, १; -र्थेन पावा १, २, ४५.

२अ-तद्-अर्थ^m - -र्थे पा ६, २, १५६;
३, ५३.

अ-तद्-अर्थ^k - -त्व- -त्वात् पावा
३, १, ६७; मीस् १०, ६, २५.

अ-तद्-आ(ल्या >)ख्य^k - -ख्येषु
मीस् ३, २, २०.

अ-तद्-गुण^k - -णाः मीस् १, ४, १८;
-णाय आपध २, १८, १२; २०,
२; हिध २, ५, ६४.

अतद्गुण-स्व- -त्वात् मीस् ६, ७, १६.

अ-तद्-धर्म^k - -र्मः मीस् ६, ४, १२;

a) षस. > बस. । b) षस. पूष. = इष्टि- । c) नाप. । षस. । d) द्रस. । e) द्रस. > षस. । f) विप. । बस. । g) वैष १, परि. च द्र. । h) तु. भासडा.; पाका. पासि. पागम. तु अत्, द् इति, पागम [पक्षे] श्रुद् इति च पामे. । अद्वा इत्यस्य अद् इत्यंशतोऽभिन्नमिदं स्यात् । i) तस. उप. = संस्कारनिमित्त-शब्द- । j) तृस. पूष. द्रस. । k) तस. उप. बस. । l) तस. उप. तस. > बस. । m) तस. उप. तस. ।

अ-तद्धित^१-तम्^१ गोय २, ८, १५;
जैय १, ९ : ४; -ते पा १, ३, ८;
६, ४, १३३; पावा १, ३, ४; ६,
१, २, १८; ८, ४, ३८.

अतद्धित^० पा ५, ४, ९२.

अ-तद्-विकार^२-रः मीस् ५, ३,
११; -रात् मीस् ६, ५, ४७.

अतद्विकार-त्व- -त्वम् मीस् ८, ४,
२७; -स्वात् मीस् ८, १, २५.

१, २ अतन-अतन-वत्- ✓ अत् द्र.

अ-तनूनपात्^३-पान्ति ऋअ २, १, १३

अतन्त^४-न्तः हिश्रौ १३, १,
२४

अ-तन्त्र^५-न्त्रे पावा २, २, ३४.

अ-तन्द्रित, ता^६-न्तः जैश्रौका १२५;

आमिष्ट २, ६, ८ : ८; वैय ४,
१२ : १२; कप्र २, ९, ५; १०, २;

अ १, ४६, २; वाध २६, १;
२७, ८; शंघ १४८; ३७१; विध
२३, ४२; २८, ४७; ५५, १६;

९७, १६; ऋअ ३, ४; वृदे ७,
७७; माशि १२, ६; -ता पागृ
२, १७, ९; -ताः जैश्रौका ३३;

अप ६८, ५, २५.

अ-तन्-निमित्त^७-त्तात् पावा ४,
१, ८८.

अतन्निमित्त-त्व- -स्वात् मीस् १, १,
२४; ३, ८, ३८.

अ-तन्-न्याय^८-त्व- -स्वात् मीस्
१०, ७, ६९.

अ-तपर- -रे पाप्रवा ४, ४.

१ अ-तपस्^९-पः आपमं २, ५, ८.

२ अ-तपस्^१-पसः या १३, १२.

अ-तपस्विन्-स्विनः वाध २६, १७;
-स्विने शुभ ४, २२०; -स्वी
आपश्रौ २१, १, १०; हिश्रौ १६,
१, ६.

अ-तप्त-तनू^{१०}-नूः आपश्रौ १२,
१२, १३; हिश्रौ ८, ३, ४२.

अतमान- ✓ अत् द्र.

अ-तमेरु^{११}-रुः काश्रौ २, ५, २५१.

अ-तरुण^{१२}-णेषु पा १, २, ७३.

अ-तर्पित- -ताः वाध ११, ३३.

अ-तव्यस्^{१३}-व्यान् या ५, ९.

अ-तष्ट-ष्टः मागृ २, ५, २; -ष्टम्
आपश्रौ ७, ३, १; भाश्रौ ७, २, ९;

हिश्रौ ४, १, ३०; कागृ ५२, ५.

अतष्ट-द्विप्रादेशो (श-उ) पर^{१४}-रम्
वैश्रौ १०, २ : ८.

अतष्ट-मूल^{१५}-लम् माश्रौ १, ८, १,
१४.

अतस्^(ः) एतद्- द्र.

अतस्^१-पाउ ३, ११७^{१६}; पाग ४, १,
४१; -पासा, -सानिया ५, १२.

अतसी-पाउभो २, ३, १७३^{१७}; पा ४,
१, ४१; -पासीनाम् आश्रौ ७, ४,
६; वैताश्रौ २७, १३; ३५, १२.

आत (स>) सी^{१८}-सीः
अशा २१, २.

अतसी-कुसुम्भ-सर्षप-वाक्षं-
स्नेह^{१९}-हाः बौश्रौ २८, १३ : ६.

अतसी-समिध्- -मिधाम् अप
३६, २४, २.

अ-तस्कर^{२०}-रम् अप्रा ३, ४, ११.

अ-ताडन- -नम् माशि ५, ४.

अ-ताडूण्या (प्य-अ) तिदेश^{२१}-शात्
पावा ६, १, ८५.

अ-तान्तव^{२२}-वे द्राश्रौ ५, ४, २४;
लाश्रौ २, ८, २४.

अति^{२३} आश्रौ १०, ३, १२; ११, ६, ८;
शाश्रौ १२, १७, ११^{२४}; आपश्रौ २,
२, ८; १८, १६, १०^{२५}; बौश्रौ
४, २ : ३३; ६; २६ : २३;

१२, ११ : ६^{२६}; १७, ४९ :
७^{२७}; २३, १७ : १३^{२८}; २४,
२४ : १४; ३२ : ३^{२९}; २६,
२४ : २; ३३ : २३^{३०}; भाश्रौ
१, ८, ११; माश्रौ १, १, २,
२१; वाश्रौ १, २, ३, २१;

वैश्रौ ५, १ : ४; १०, ७ : १२;
हिश्रौ १, ६, ९५; २, ७, ३३;
४, २, ३८; १३, ५, ३५^{३१};

निसू १, ११ : १९^{३२}; आमिष्ट १,
६, ३ : ३४; कप्र २, ७, ४; अप
७०^{३३}, ११, २६^{३४}; या १, ३; ५,
२^{३५}; ऋप्रा २, ४७^{३६}; १२,
२०^{३७}; १५, १७^{३८}; शुप्रा ६, २४^{३९};

तैप्रा ८, २४^{४०}; पाग १, ४;
५८^{४१}; ८, १, ६७.

अति- -तिः पा १, ४, ९५;
-तेः पा ५, ४, ९६; ६, २, १९१;

पावा ६, २, १९१.

अति-क^{४२}-कम् अप ७१, ४, ५.

अति-तस्^(ः) पि ४, ७.

अत्या (ति-आ) दि- -दयः पावा २,
२, १८.

२, १८.

२, १८.

२, १८.

२, १८.

a) तस. । b) सप्र. अतद्धितम् <> न तद्धितम् इति पाभे. । c) विप., नाप. च । बस. । d) पाठः?

०न्त्र- इति शोधः । e) तस. उप. बस. । f) बस. । g) वैप १, परि. च द्र. । h) विप. (यूप-) । कस. > बस. ।

i) विप. (यूप-) । बस. । j) बप्रा. । व्यु. ? । k) < ✓ अत् (तु. वैप १, ७१ e) । l) वैतु. वैप १, ७१ f । m) विप. ।

तस्यविकारीयः अन् प्र. (पा ४, ३, १४०) । n) षस. पूष. द्रस. । o) तस. उप. षस. । p) विप. । तस. उप. <

तन्मु- । q) कप्र. । r) सप्र. काश्रौ ४, १, २७ अतीत्य इति पाभे. । s) स्वाअ. । वा. क्रिवि. । t) =अधिक- ।

अत्यर्थे कन् प्र. उत्सं. (पा ५, २, ७३) ।

वैप ४-प्र-११

अति-कपि(ल>)ला^a- -ला विध
२४, १५.

अति-काय^b- -या: अप ५२, ५, २.

अति√काश् > अ(ति>)ती-काश,
शा^c- -शा बौश्रौ ६, १: ११;
२५, ५: ९^d; -शात् आपश्रौ
१०, ९, ८; बौश्रौ ६, ५:
१२; भाश्रौ १०, ६, ३; माश्रौ
२, १, २, १७; हिश्रौ १०,
२, ९; -शान् बौश्रौ २५, ५:
१०; -शाम् बौश्रौ १५, १:
११; -शेन बौश्रौ ९, ११: १८;
वैश्रौ १३, १३: १६; -शेषु बौश्रौ
६, ५: १२.

अति√कृ, अतिकरोति बौश्रौ २७,
२: २०^f.

अति-कृच्छ्र^g- -च्छ: वाध १४, ३३;
२१, १६; २४, १; २; शंघ
१५१; ४३२; बौध २, १, ६६;
४, ५, ८; गौघ २६, १८; -च्छम्
आमिष्ट ३, १२, १: ८; वाध २१,
३०; शंघ ४३५; बौध २, १, ७;
विध ५४, ३०; -च्छस्य काष्ट ५,
१२.

अति-कृश^h- -शेन अप ५८², ३, ८.

अति√कृष्, अतिकर्षति कौस् २०, ५.

अति√कृ > किर, अतिकिरेत् बौश्रौ
२०, २६: १५.

अति√कम् > काम्, क्रमि, अति-
कामति काश्रौ; अतिक्रामतः
आपश्रौ; अतिक्रामन्ति काश्रौ
१८, ३, २२^e; ऋतिक्रामामि
आपश्रौ १३, १८, ९; बौश्रौ

१४, २०: १८; २२; २६;
ऋतिक्रामन्ति आपश्रौ ९, १७,
१; हिश्रौ १५, ७, २३; अतिक्राम^f
गोष्ट २, २, १२; अत्यक्रामत्
बौश्रौ २५, १०: ९; या १०,
१०; अतिक्रमेत् कप्र २, ५, ४;
अतिक्रमेत् हिध १, ८, ३६^h;
अतिक्रामेयुः शाश्रौ १०, २१, ७.
अत्यक्रमीत् आपश्रौ; ऋतिक्राम^f
अक्रमुः शाश्रौ ९, २८, ७;
अतिक्रामीः हिष्ट १, २०, १०^f;
अत्यक्रमिषम् बौश्रौ १६, ६:
१५; अत्यक्रामिष्यत् निस् ८,
११: ७.

अतिक्रमयतः कौस् ७७, ६; अति-
क्रमयन्ति हिश्रौ १६, ३, ३०;
अतिक्रमयेत् आश्रौ ३, १०, १३.

अति-क्रम^h- -मः अप ७०³, ११,
३४; -मम् विध २८, ४८; वृदे ५,
७०; -मे शंघ ३३६.

अतिक्रामा(म-अ)नुरूप- -पम्
वैष्ट २, ८: ८.

अति-क्रमण- -णम् काश्रौ २२, ५,
२०; वाश्रौ १, १, ५४; -णे पा
१, ४, ९५.

अति-क्रममाण- -णाः या ६, १२.

अति-क्रम्य आश्रौ २, ५, १.

अति-क्रान्त, न्ता- -न्तः आपश्रौ;
-न्तम् काश्रौ; -न्ताः बौश्रौ २६,
२२: ८; -न्तायाम् कौष्ट २, ६,
३; शाष्ट २, ९, २; -न्तायै बौश्रौ
२१, ११: १९; २१; -न्ते कप्र ३,
८, ९; अप ६८, ५, २; -न्तेन अप

१, ५, ६; -न्तेषु बौश्रौ.

अतिक्रान्त-योग-> ँगिन्¹-
-गीनि अप १, ५, ७.

अति-क्राम^h- -माणाम् बौश्रौ १४,
२०: १३; -मेषु बौश्रौ २३,
८: १.

अतिक्रामा(म-अ)तीमोक्ष¹- -क्षैः
बौश्रौ ८, ६: १४.

अति-क्रामत्- -मन् काश्रौ ८, २, ३०;
-मन्तः या ६, १२⁴; -मन्तम्
निस् ८, ११: २६; हिपि २३: ६.
अतिक्रामन्ती- -न्ती शाश्रौ १२,
२४, २⁴.

अति-क्रामम्^k वाश्रौ १, ३, ४, २८;
७, ४, ३९.

अति√क्री > अति-क्री¹- -क्रिया
बौश्रौ १८, २३: १५; -क्रियाम्
बौश्रौ २३, १८: २७; २६, ३२:
२०; २३.

अति√कृष् > अति-कृष्ट^e- -ष्टाय
भाशि १६⁴.

अति-क्रोध^m- -घात् शंघ ४४०.

अति√क्षर > क्षारि, अतिक्षारयति
भाश्रौ १, २६, ३².

अति-क्षारयत्- -यन् वैश्रौ ४, १०:
९.

अति√क्षिप् पा १, ३, ८०.

अति-खट्व^m- -ट्वाय पावा ७, ३,
११३.

अति√खन् > अति-खा(त>)ता^e-
-ता वैश्रौ ५, १: ४.

अति√गम् > अति-गम्य ऋप्रा ११,
२, २४.

a) विप. । प्रास. । b) विप. । बस. । c) वैप १, परि. च द्र. । d) नाप. (व्रत-विशेष-) । प्रास. ।

e) ँमति इति पाठः ? यनि. शोधः (तु. चौसं.) । f) सपा. अतिक्राम <> अतिक्रामीः इति पाठे. । g) सपा. आपध १, ३
१, १४ अतीयात् इति पाठे. । h) आचम्यादिषु वा उंसं. (पावा ७, ३, ३४) । i) विप. (नक्षत्र-) ।

j) द्रस. । k) णमुलन्तम् अव्य. । l) नाप. (एकाह-विशेष-) । अधिकरणे किप् प्र. ।

m) प्रास. ।

अति/गा, अतिगाः^a काश्रौ ९, १२, ४; माश्रौ २, ४, १, ३५; अतिगुः आपश्रौ १, १४, ३; ऋति... अगाम् आपश्रौ ७, २, १; बौश्रौ ४, १ : १७; भाश्रौ ७, १, १०; माश्रौ १, ८, १, ४; वाश्रौ १, ६, १, ८; वैश्रौ १०, १ : १४; हिश्रौ ४, १, १९; शुश्र १, ३६३; ऋत्यगाम् बौश्रौ १६, ९ : १२^३; भाश्रौ ३, ११, १^३; हिश्रौ २, ६, ६^२.

अति/गाह्, अतिगाहते आपश्रौ १०, १९, ९; भाश्रौ १०, १२, १७; अतिगाहेमहि बौश्रौ १७, ४१ : १००^०.

अति-गुरु^b -रवः विध ३१, १; -रु निस् ४, २ : १४^c; ३१; ८ : २०; -रुः बौश्रौ २६, १२ : १५.

अति/गृह्, ग्रह्, अतिगृह्णीते निस् ६, १ : ४.

अति-ग्रह- > अतिग्रहा (ह-अ) व्यथन-क्षेप^d -पेषु पा ५, ४, ४६.

अति-ग्राह्य^e -ह्यः, -ह्यम् शाश्रौ; -ह्यस्य बौश्रौ २३, ९ : ५; ७; हिश्रौ १३, १, १६; -ह्याः काश्रौ; -ह्याणाम् आपश्रौ; -ह्यान् आश्रौ; -ह्ये बौश्रौ २३, ९ : ४; -ह्येण हिश्रौ १३, १, १७; -ह्यैः वाश्रौ ३, १, २, २७; हिश्रौ १६, ७, २०; -ह्यौ बौश्रौ १६, ३ : २५.

अतिग्राह्य-ग्रहण- -णम् काश्रौ १२, ३, २.

अतिग्राह्य-पात्र^f -त्रम् आपश्रौ १८, १, १३; -त्रस्य हिश्रौ १३, १, १३; -त्राणि आपश्रौ १२,

१, १५; १८, १, १३; २१, २१, १४; वैश्रौ १५, २ : १०; ११; हिश्रौ ८, १, २७; १३, १, १३; -त्रेण हिश्रौ १३, १, १४.

अतिग्राह्य-भक्ष- -क्षेषु बौश्रौ १६, २ : १०.

अतिग्राह्य-वत् काश्रौ १३, २, १४; २३; १४, २, २; २२, ५, १३.

अतिग्राह्या (ह्य-आ) यतन- -ने आपश्रौ २१, २१, १४; हिश्रौ १६, ७, १०.

अति-घातम् अति/हन् द्र.

अति-घोर- -रः अत्र ७०^३, ३२, २३; -रम् कौस् ४६, १०.

अति-चतुर-मुख^g -खम् अप ३६, १, ३.

अति/चर्, अतिचरन्ति वापश्रौ ३, २५ : ६; अतिचरेत् गौध १८, २.

अतिचरिष्यति आपश्रौ ९, २०, ३.

अति-चार- -रम् वैताश्रौ ८, २०; -रे वाध २१, ६; -रेण कप्र ३, १, ४.

अतिचारि(न् >) णी- -णी गौध २२, ३७.

अति-चिर^h -रम् बौश्रौ १८, ४४ : ३; लाश्रौ १०, १६, ११.

अति-च्छन्दस्ⁱ -न्दसः वाश्रौ; -न्दसम् काश्रौ; -न्दसा शाश्रौ; -साम् शाश्रौ ७, २७, १३; ऋप्रा १६, ७९; १७, ४४; -न्दः सु शाश्रौ १८, २३, ९; -न्दस्सु आश्रौ ६, ३, ११; -न्दाः आश्रौ ४, १२, १; २; -न्दांसि उनिस् २ : १६; ८ : २५.

आतिच्छन्दस- -ऋसः शाश्रौ १०,

८, २; -ऋसाय शाश्रौ ९, २७, १; तैप्रा १४, ८; -न्दसौ आश्रौ ६, २, ६.

आतिच्छन्दसी- -सीः

वैताश्रौ २९, ८^h.

• ऋतिच्छन्द(न्दा ?)श्-च्छन्दस^j -

-न्दसः आपश्रौ १४, ४, १६;

हिश्रौ ९, ७, ६१; माश्रौ २, ५, ३, २९.

अति-जगती^k -ती निस् ३, १२ :

४६; ऋअ २, ६, ४८; -तीम् शुश्र

१, ६२१; उनिस् ४ : ३७^०;

-त्यः ऋअ ४, ६; अत्र १७, १;

१९, १७; -त्यौ ऋअ २, ५,

४१; शुश्र २, ४०१; अत्र १३, १.

१ अतिजागत^l -तम् ऋअ २, ५,

८७.

अतिजगती-ग(र्भ >) र्भा^m - र्भा

अत्र ६, ६३; ६८; ७, ७०.

अतिजगती-शक्य(री-अ) ष्य(ष्टि-

अ) तिच्छन्दस्ⁿ - न्दांसि अत्रभू

३.

अतिजगती-शक्य(री-अ) ष्य(ष्टि-अ)

त्यष्टि-ष्य(ति-अ) तिष्ठति-प्रकृ-

ति^o - तयः अत्रभू २; ३.

अतिजगत्य(ती-अ) तिशाकरी^p - यौ

अत्रभू १.

अतिजगत्य(ती-अ) न्त^q - न्तः ऋप्रा

१८, १२.

२ अति-जागत^r - > अतिजागत-ग-

(र्भ >) र्भा^m - र्भा अत्र ९, १;

११, १^३; १३, १; २.

अतिजागत-शाकरा(र-अ) तिशाकर-

घार्य-ग(र्भ >) र्भा^m - र्भाः अत्र

a) पाभे. वैप १ परि. अतिगाः टि. द्र. । b) विप. । प्रास. । c) °रु इति पाठः ? यनि. शोषः

(द्र. मुक्ते.) । d) द्वस. । e) वैप १, परि. च द्र. । f) कस. । g) प्रास. । h) अतिच्छा° इति पाठः ?

यनि. शोषः । i) विप. । बस. । j) नाप. (छन्दो-विशेष-) । प्रास. k) विप. ([अतिजगतीच्छन्दस्-] सृक्-) ।

तस्येदमीये अणि उप. वृद्धिः उंसं. (पा ७, ३, १०) । l) विप. (अतिधृति-) । बस. पू. द्वस. ।

१२, ३^a.
 अतिजागता(तन्त्र)नुष्टुब्-ग(र्भे >)
 भा^०- -र्भा अत्र १०, १२.
 अतिजागता(त-आ)नुष्टु(भ >)-
 भा^०- -भा अत्र १०, १३^a.
 अति ✓ जीष्, अतिजीवति अप्राय २,
 ९; अतिजीवेत् आप्रथ २, २५,
 १०; हिद्य २, ५, १८९.
 अति-त्सः (ः) अति द्र.
 अति-ताम्र^०- -त्राणि बौश्रौ १२, १०:
 १३^१.
 अति-तूर्ण अति ✓ त्वर् द्र.
 अति ✓ तृद्, ऋति (ततर्द) कौस्
 ४३, ३; अत्र ३२, १, ५; अत्र ७,
 ४१; अत्र २ : ६७.
 अति ✓ तृ, अति...तरामि आप्रथौ
 ५, ८, ४^f; बौश्रौ २, १५ : १९^f;
 वाश्रौ १, १, ३, १६; हिश्रौ ६, ५,
 ९^f; अति (तर) अत्र ७, १, ५^१;
 ऋतितरामि आप्रथौ ४, ११, ३;
 काश्रौसं ४ : १७; भाश्रौ ४, १६,
 ३; हिश्रौ ६, ३, ६; अत्यतरम् सु
 २९, ६; ऋति...तरेयम् आप्रथौ
 ५, २, १; ऋति...तरेम बौश्रौ
 ६, ५ : ६; बौध ४, २, १७.
 अति-तारि(न् >)णी^०- -णीः शाश्रौ
 १५, १७, १^१.
 अति-तेजस्^१- -जसि अत्र ६५, १, २.
 अति ✓ त्वर् > तुर् > अति-तूर्ण-
 -णम् विध ६३, ११.

१अतिथि- ✓ अत्र द्र.
 २अतिथि^१- पाग ४, १, १२३;
 -धीनाम्^१ आप्रथौ २४, ८, १३.
 २आतिथेय- पा ४, १, १२३.
 २आतिथ्य^१- -०ध्य आप्रथौ २४,
 ८, १३.
 २अतिथि-वत् आप्रथौ २४, ८, १३.
 अति ✓ दंद्द् (दाने)^m, अतिदंहीः या १, ७.
 अति ✓ दघ्^m, ऋतिघक् या १, ७^०.
 अति ✓ दह्, ऋतिधाक्^m आप्रथौ
 १, २५, ९; बौश्रौ १, १० : ९;
 भाश्रौ १, २६, ७; हिश्रौ १, ६, ५२.
 अति-दाह- -हे बौश्रौ २८, ११ : ४.
 अति-दान^०- -नम्, -नानि वाध २९,
 १९.
 अति-दारुण^०- -णम् अत्र ७०^२, ३, ४.
 अति ✓ दिश्र, अतिदिशेत् वैगृ ६६:१.
 अति-दिश्य काश्रौ २५, २, २३.
 अति-दिष्ट- -ष्टानाम् आश्रौ २, १,
 १२.
 अति, > ती-देश- -शः आश्रौ ९,
 १, २; पावा ४, १, ९०; मीस् ८,
 ४, २८; -शात् मीस् १०, १, १;
 -शे पावा १, २, १; ३, १, ३९; ३,
 १३२; ४, ८५.
 अ(ति >) ती-देश- -शे पावा
 १, २, १८.
 अति-दीर्घ^०- -र्घः अत्र २७, २, २;
 -र्घम् अत्र ३, २, ३; काशु ३, ३.
 अति-दुःख^०- -खेन अत्र ६८, १, २७.

अति-दूर^०- -रम् आप्रथौ ५, ४, ४;
 आप्रथु ४, ३; हिशु २, २; -रे
 अत्र ५२, ९, ३.
 अति ✓ दृश् > दृशि, अतिदर्शयन्ति
 वाधुश्रौ ४, १०८ : २.
 अति-दृ(श्य >)श्या^०- -श्याः बौश्रौ
 १२, ८ : १२.
 ऋति-देव-पद^०- -दम् अत्र १, ४०,
 २; अत्रां १०, २.
 अति-दो(पा >)ष^१- -षम् आप्रथौ
 १५, २१, ७^५.
 अति ✓ दु, ऋतिद्वत्र शाश्रौ ४, १४,
 १५; आग्र ४, ३, २१; कौगृ ५,
 ३, ३; कौस् ८, ३५; ८१, २२;
 वृदे ६, १५९.
 अति-द्रुत- -ऋतः आप्रथौ १२, १,
 १९^२; ६, १२^२; हिश्रौ २३, १,
 २२^२; भाशि १७; तैत्रा ११,
 १७; -तम् विध ११, ६.
 अति-द्रुत्य आप्रथौ १५, ९, १०;
 भाश्रौ ११, ९, १३.
 अति-द्वितीय^०- -यम् गौय १८, ९.
 अति ✓ धाष् (गतौ), अतिधावत् अत्र
 ५, ८^१.
 अति-धीर^०- -ऋरः आश्रौ १, ३, ३०;
 शाश्रौ १, ६, ३^f; आप्रथौ २४,
 १२, ७.
 अति-धृति^०- -तयः अत्र १०, ५;
 १२, ३; १७, १; -तिः ऋत्र
 २, १, १२७; ४, ८; शुअ ४

a) वैतु. w. सात. ०र्भा (प्र१) इति । b) विप. (अतिधृति-) । द्रस. > बस. । c) विप. (बृहती-) । बस. । d) ०भम् इति पाठः ? यनि. शोषः । e) प्रास. । f) पासे. वैप २, ३खं. अति...तरामि तैत्रा १, २, १, १५ टि. द्र. । g) विप. (इरावती-) । h) वैतु. आनतीयः अतिता, ऋणी इति पद-द्वयम् ? । i) विप. (सवितृ-) । बस. । j) व्यप. (गोत्रप्रवर्तक-ऋषिविशेष-) । व्यु. ? । k) बहु. < २आतिथेय, २आतिथ्य- । l) यञ् प्र. उंसं. (पा ४, १, १०५) । m) वैप १, ७९ d टि. द्र. । n) पासे. वैप १ परि. द्र. । o) विप. (अप्-) । अधिकरणे क्यप् प्र. (पा ३, ३, ११३) । p) अस. उप. = रात्रि- । q) पाठः ? इनि C. । सप्र. भाश्रौ ११, २२, ९ हिश्रौ २४, ८, ३५ अभिदो^० इति पासे. । r) अधिधीरः इति पाठः ? यनि. शोषः (तु. पूर्वाऽपरे स्थले) । ४) नाप. (छन्दो-विशेष-) । प्रास. ।

१८३; अत्र १३, ३; ऋषा १६, ८६; उनिस् २ : १७; १८.
अति-नाश^a - शाय अय ५४, २, २.
अति-निचृत्^b - चृत् ऋअ १, ४, ५; २, ६, ४५; शुभ्र ५, १७; १८^c; ऋषा १६, २२^d.
अति-नि(द्रा>)द्र^e - द्रः अय ६७, ३, ३.
अति-नि✓घा, अतिनिदधाति वैश्रौ १७, १२ : ७.^f
अति-निस्त्रो(त्र-उ)न्नत-देशा (श-अ)वरोहणा (ण-आ)रोहण^g - णे काथ २७६ : २.
अति-निर्✓हन्, अतिनिर्हण्यात् ऋषा ३, ३२.
अति-नि(स्>)ष✓पीङ्, अति-निष्पीडयेत् माशि १२, ८.
अति✓नी, अतिनयति आपश्रौ १५, ३, ५; कौसू ३७, ४; अति... नयामि काश्रौ १५, ७, ६; अति... अनयन् बौश्रौ १२, ८ : ७ ऋ^h; अतिनयेत् आपश्रौ १८, ८, ८; काश्रौसं ३३ : १८; भाश्रौ ९, ९, १०; १४; माश्रौ ३, १, ३५; हिश्रौ १५, २, २१; २२.
 अति...नेषत् पाय ३, १, २ⁱ; अति...ने (थ>)था ऋषा ८, ३४^j.
अति-नीत,ता- -तः भाश्रौ ९, १०, १२; -ताः आपश्रौ १, १४, ३^k.
अति-नीय आश्रौ ३, १२, ३; आपश्रौ १०, १७, ४; १३, ५, १०; ६,

१४; वैश्रौ २, २ : १२; माश्रौ २, १, ३, २^l; वाधूश्रौ ४, ११७ : १३.
अति-नी(च>)चा^m - चाम् कप्र १, १, १५.
अति-नीलⁿ - लाः याशि २, १.
अति✓नू, अतिनावयेत् हिश्रौ ४, २, ५६^o.
अति-पञ्च-गुण^p - णम् गौध १२, ३३.
अति-पण्डित^q - तः वाधूश्रौ ३, ४० : ७.
अति✓पत् (गतौ), अतिपतेत् आपश्रौ ९, ११, २४; १४, ३१, १; हिश्रौ १५, ३, २५; ८, ३१.
 अतिपत्येरन् कप्र ३, ६, १७.
 ऋ^rअतिपसत् द्राश्रौ १०, २, १०; लाश्रौ ३, १०, ९^s.
 अतिपातयन्ति आपश्रौ २१, १९, १५; हिश्रौ १६, ६, ३७.
अति-पात- -तात् बौश्रौ २०, २२:४.
अति-पातन- -नम् आमिष्ट २, ७, २ : १०.
अति✓पद्, अतिपद्यते काश्रौसं ३१: ११; अतिपद्येत आपश्रौ ९, ७, ३; माश्रौ २, ३, ५.
 अतिपदे कौसू ४२, १७^t.
 ऋ^uअतिपादयानि आश्रौ ३, १३, १८^v; आपश्रौ ३, ११, २; ९, १२, १; १५, २३; बौश्रौ २७, १ : ८; १२ : ११; २९, २ : ६; भाश्रौ ३, १०, २; ९, १८, १३; हिश्रौ

२, ६, ११; १५, ४, ४३; अति-पादयेत् बौश्रौ १३, ३ : २; २३, १ : ९; भाश्रौ ९, ६, ५; हिश्रौ १५, १, ८१; ४, ११; आपध २, २८, ५; हिध २, ६, ५^w.
अति-पत्ति- -त्ति काश्रौसं ३१ : १२^x; -त्तिः अत्राय ४, ४.
अतिपत्ति-श्रुति- -तेः काश्रौ २५, ४, २२.
अति-पन्न,न्ना- -न्नः बौश्रौ २०, १ : ७; -न्नाः बौश्रौ ३, १४ : ८; -न्नाम् बौश्रौ २३, १ : ११; १३^y; १७; -न्ने आमिष्ट ३, ५, १ : १०; बौपि १, १ : ९; अत्राय २, २.
अतिपन्न-प्रायश्चित्त- -त्तम् आमिष्ट ३, ५, १ : ११; बौपि १, १ : ९.
अतिपन्न-स्कन्न-भिन्न-भ्रम नष्ट-दुष्ट-विपरीत-दग्धा (ग्ध-अ) श्रुत्य- (इत) निकृत्^z - तानाम् बौय ४, ५, २.
अति-पाद्य बौश्रौ १३, ८ : ९; भाश्रौ ९, १६, ११.
अति-प(द>)दा^{aa} - पा ६, २, १९१.
अति-परी(रि✓इ), अतिपरियन्ति बौश्रौ ९, १७ : १५; अतिपरियुः आपश्रौ १५, १७, ९; भाश्रौ ११, १७, १२.
अति-पवमान- पवित-अति✓पूद्.
अति✓पश्व> अति-पश्य^{ab} - इयम् अत्र ११, २^{ac}.
अति✓पा (पाने), ?अतिपिपाति^{ad} सु

a) प्रास. । b) नाप. (छन्दोविशेष-). प्रास. । c) चृत् इति पाठः ? यनि. शोषः । d) च्व इति पाठः ? यनि. शोषः । e) विप. । बस. । f) सप्र. आपश्रौ १८, ४, १ अवदधाति इति पाठे. । g) प्रास.> द्वस.> कस.> सस.> द्वस. । h) वैप १, ८०f टि. द्र. । i) पाठे. वैप १, १८४६ i टि. द्र. । j) अति-रुम्भाम् इति BI. पाठे. । k) प्रत् इति पाठः ? यनि. शोषः । l) प्पातया^o इति पाठः ? यनि. शोषः (तु. तैत्रा ३, ७, ११, २) । m) अतिवापयेत् इति पाठः ? यनि. शोषः (तु. आपध.) । n) पाठः ? ऽन्तिम् इति संस्कृतुः टि. । o) द्वस. । p) गप्र. । उप. शः प्र. उसं. (पा ३, १, १३७) । q) सपा. सु २६, ३ ?अप्यतिवाति इति पाठे. ।

२४, २; २५, ५.

अति-पातक^a - कानि विध ३४, १.

अतिपातक-महापातक (क-अ) तु-
पातको (क-उ) पपातक^b - केषु
विध ३३, ३.

अतिपातकिन् - किनः विध ३४, २;
४३, २३; -किनाम् विध ४४,
२; -की विध ४५, २.

अति-पातम- अति/पत् द्र.

अति-पाद-निचृत्^c - चृत् पिं ३,
११.

अति-पाद्य अति/पद् द्र.

अति-पार-ग^a - गः शंघ २००.

अति/पू, अतिपवते बौश्री १४,
२१ : ३५.

अतिपावयति माश्री ५, २, ४,
१८; वाश्री ३, १, १, १५; २, ७,
११; ५९; वैश्री १६, २ : १०;
१२ : ८; हिश्री ८, ४, ३७; ९,
१, १४; ३, ३२; अतिपावयेत्
माश्री २, १, १, ४२.

अति-पवमान- नस्य बौश्री ७, ६ :
२२; ३७; ४२; ४७; ५१; ५५;
७ : ११.

अति-पवित- तस्य वैश्री ११, ३ : ५.

अति-पावन^d - नः बौध ४, ५, ९;
२५; २९; -नात् माश्री ५, २,
११, १२.

अति-पाव्य माश्री २, ३, ५, १४; ४,
४, १२; ५, १, १९; वाश्री ३, २,
७, ५९.

अति-पाव्यमान- ने वाश्री ३,
१, १, १५.

अति-पूत- तम् आपमं २, २०,
३३; आम्रिग ३, २, ६ : २; भाग्य
२, १७ : ३; हिग्य २, १५, ९.

अति/पू, अतिपिप्रति ऋप्रा २, ४२.

अति...पर्वत् आश्री २, १८, ३;
बौश्री १०, २२ : ८; या ७,
२०; १४, ३३; भाशि ४; अति
(पर्वत्) शाश्री १२, २, १४;
बौश्री २८, १० : ७; ८; या ७,
२०; १४, ३३; अतिपर्व > र्वा
ऋप्रा ८, १४; भाशि ४.
(अति)पारय > या ऋप्रा ७, ३०;
तैप्रा ३, १२.

अति-प्रग^e - ने विध ६८, ४८.

अति-प्र/गृह्, अतिप्रगृहीतः बौश्री
१५, ८ : ६; ९ : ७.

अति-प्रचण्ड, ण्डा- ण्डः अप ६२,
२, २; -ण्डा माशि १६, ४.

अति/प्रच्छ, अत्यप्रक्ष्यः भाशि ९१, १.

अति-प्रभ- भः अप ६९, १, ३.

अति-प्र/णी (< नी), अतिप्रणयन्ति

द्राश्री १३, ४, ६; लाश्री ५, ४,
१२; अतिप्रणयेत् माश्री १, ७, ५,
३२; ३, ७, ११; द्राग्य ३, ५, ३५;
अतिप्रणयेयुः बौश्री २१, ४ :
१८; लाश्री १०, ११, ११.

अतिप्र-णय- यः गोग्य ४, ४, ६.

अतिप्र-णयन- नात् बौश्री २५,
१ : २५.

अतिप्र-णीत- तम् माश्री १, ७,
६, २८; -तस्य गोग्य ३, ७, ११;
-तात् आश्री २, ६, ९; द्राग्य ३,
२, ६; -ते आश्री २, ७, १५;
आपश्री १, १०, १९; माश्री ५,
२, ८, ४४; हिश्री २, ७, ६६;
वैताश्री ९, ९; -तेषु माश्री १,
८, ६, २६.

अतिप्रणीत-चर्या- र्यायाम्

आश्री १२, ४, १४.

अतिप्र-णीय आश्री २, ७, १९; १९,
१; वाधूश्री ४, १६ : १५; द्राग्य
३, २, १.

अति-प्रत्यूपस्^g - वसि विध ६३, ६.
अति/प्रथ > अति-प्रथन- ने बौश्री
२७, ३ : ४.

अति-प्र/दा > अतिप्र-दान- >
दाना(न-अ)र्थ^h - र्याः बौश्री
२४, १४ : ८.

अतिप्र-दाय द्राश्री १५, १, ६; लाश्री
५, ९, ५.

अति-प्र/यच्छ(दाने), अतिप्रयच्छति
बौश्री २, १६ : ५१³; १७ : ७³;
४५²; भाश्री ५, ५, १२; वाश्री
१, ४, २, १८; वैश्री १, १० : ३;
हिश्री ३, २, ३५.

अतिप्र-यच्छन् - च्छन् आपश्री ५,
२, १.

अति-प्रयत्न-तस् (>) अप ७०²,
४, १.

अति-प्र/युज्, अति...प्रयुक्त पाग्य ३,
३, ५¹.

अतिप्र-युक्ति- त्तयै बौश्री १३, १५;
३.

अति-प्रवण- णम् बौश्री २५, ५ : ४.

अतिप्र-चरण- अतिप्र/वृ (वरणे) द्र.

अति-प्र/वस् (निवासे), अतिप्रवसति
बौश्री ३, १३ : ६; २८, २ : २; २९,
९ : १; वैश्री २, १० : ४; हिश्री
६, ७, ७; अतिप्रवसेत् आपश्री
६, २६, ७; बौश्री २८, २ : २.

अतिप्र-वसत् - सतः आश्री २,
१२, ६.

अति-प्र/वृ (वरणे), अतिप्रवृणीते
आपश्री २, १६, ८; वैश्री ६, ४ :
१४; हिश्री २१, २, ९; ३, ६;

a) प्रास. । b) द्रस. । c) नाप. (छन्दोविशेष-) । प्रास. । d) विप., भाप. च । गस. उप. कर्तरि

भावे च ह्युट् प्र. । e) प्रास. उप. = प्रातःकाल- । f) विप. । बस. ।

अतिप्र-वरण- -णम् आश्रौ १२, १३, ५.
 अति-प्र√वृञ्, अतिप्रवृञ्ज्यात् माश्रौ ४, १, ५.
 अति-प्र√वृत्, अतिप्रवर्तते अप ७०^२, ७, ५; ७१, ९, १; अतिप्रवर्तेरन् आपध २, १०, १३; हिध २, ४, १३.
 अति-प्र√वृध्, अतिप्रवर्धेत बौश्रौ २०, १ : ५३; २६, २ : ६.
 अति-प्र√व्यध् > विध्, अतिप्रवि- ध्येत् माश्रौ ५, ५, १३.
 ?अति-प्रवर्ध- -व्ये^१ हिश्रौ १०, १, २८.
 अति-प्रश्न- अति√प्रच्छ द्र.
 अति-प्र√सञ्ज् > अतिप्र-सङ्ग- -ङ्गः पावा १, १, ९; ४९; २, ४१.
 अति-प्र√सृ > सर्सृ(गतौ), †(अतिप्र) सर्सृते निध २, १४; शैशि ११३.
 अति√पु, अति...अप्रवत् भाशि ९१.
 अति-प्रे(प्र√इप्(गतौ), अतिप्रेव्यति आपश्रौ १२, २७, ६; १४, ३४, ४; माश्रौ २, ४, २, १२; हिश्रौ १५, ८, ४७; वैताश्रौ २०, २.
 अति-प्रेषित^१ - ते वाश्रौ १२, ६, २८.
 अति-प्रेष^० - षः शाश्रौ १३, २०, १३; माश्रौ २, ४, २, १२; -षम् आश्रौ ६, ११, १३; शाश्रौ १०, १, ११; १८, २४, १०; -षेण बौश्रौ १६, ३ : १३; २६, १२ : १९; द्राश्रौ

१५, ३, २१; लाश्रौ ५, १२, ५.
 अतिप्रैषा(ष-आ)दि^१ - दि आश्रौ १, १२, १८.
 अतिप्रैषा(ष-अ)न्त^१ - न्तम् शाश्रौ ८, १५, ६.
 अति-प्रो(प्र√उक्ष्) > अतिप्रो(प्र-उ)- क्ष- -क्षेण बौश्रौ १५, ७ : ७; २६ : १५.
 अति-बल, ला^१ - -०ल आपमं २, १७, १२; -लः आपमं २, १७, ११; -लस्य सु २९, ६; -ला अप ५, १, ५.
 अति√बृह्, अतिबृहति या ९, २२.
 अति-ब्रह्मवर्चस^१ - -सम् बौश्रौ १३, १७ : ६.
 अति-भय^१ - -यम् अप ६४, ८, २; -ये अप ७०^३, ११, २४.
 अतिभया (य-आ)वह- -हः अप ७०^३, २१, १; -हे अप ६४, २, ४.
 अति-भव^१ - -वे अप २०, ६, १^१.
 अति-भास्^१ - > °भास्-कर^१ - -रः अप ६४, २, ३.
 अति√भू, अति...भवति हिश्रौ १७, ८, २४; अति...भवन्ति आपश्रौ २३, ८, ६; १३, ८; हिश्रौ १८, ३, ३; ४, ४३.
 अति-भोजन^१ - -नम् अप ६७, ३, ३.
 अति√मथ् > अति-मथित^१ - -तानि

आपश्रौ २१, १७, ८; हिश्रौ १६, ६, ७; -ते आपश्रौ २१, १७, ९; हिश्रौ १६, ६, ८.
 अति-मधुर-प(यस् >)यो-हार^१ - -राः अप ६८, १, २५^१.
 अति-मध्ये-ज्योतिस्^१ - -तिः अत्र ४, २९.
 अति√मन्, अति(मन्यते) कौसू ४७, ५२^१; †अतिमन्यध्वम् भागृ २, २७ : ४; हिश्रु १, १४, ४; †अतिमन्याध्वै आपमं २, २२, १०; अतिमन्येत बौश्रौ २०, २३ : २३.
 अतिमेने वाधूश्रौ ४, ५५ : २; अत्यमंस्थाः वाधूश्रौ ४, ५५ : ६.
 अति-मान- -नात् शंघ ४४०.
 अति-मनोरम^१ - -मौ विध १, २६.
 अति-मात्र, त्रा^१ - -त्रः या १४, ५; -त्रम् अप ७०^३, १५, २; अत्र ५, १९^१; अपं २ : ४९^१; -त्राः वाश्रौ २, १, ७, २१.
 अतिमात्र-शस् (:) अप ५८^१, ४, १९.
 ?अतिमित्रवन्मित्रम्^१ शंघ ११६:५१.
 अति√मिद् > अति-मेदन- -नाय निस् ६, ७ : ४३.
 अति√मुच्, > मुमुक्ष, मोक्ष पा ७, ४, ५७; अतिमोक्षते सु २२, १.
 अति-मुक्त- -क्तम् शंघ ११६ : ५४.
 अति-मुक्ति^१ - -क्तिभ्यः आपश्रौ १९, १३, १; हिश्रौ २३, २, ३८^१;

a) पाठः ? अत्रक- > -स्के इति शोधः (तु. सप्र. मै ३, ८, ४ आपश्रौ १०, २०, ६ निर्बस्कु- > -स्के इति पाठे.)। b) नाप. (हारियोजनयागोत्तरकाल-)। प्रास. उप. =प्रैष- । c) नाप. (मन्त्र-विशेष-)। प्रास. । d) बस. । e) नाप. (सर्प विशेष- , श्रोषधि-विशेष-)। बस. । f) प्रास. । g) अत्र. उप. =जन्मन्- । h) °दिभ° इति पाठः ? यनि. शोवः (तु. तैत्र्या १०, ४३, १)। i) विप. (भास्कर-)। उस. । j) नाप. (छिद्र-)। k) प्रास. > कप्र. > उस. । l) शाय इत्येवमुत्तरेण संधिरार्षः । m) नाप. (छन्दो- विशेष-)। प्रास. । n) वैप १, परि. च द्र. । o) अन्तिमित्र- > -त्रम् इति, अनुमित्र- > -त्रम् इति च द्वि-पदः शोधः (तु. मा १७, ८३ प्रश्न., ऋपु २१९, ३० [यत्र ?अतिमित्रम् इत्यत्र यनि. शोधः] इति च)। p) नाप. (आहुति-विशेष-)। q) °क्तीभ्यः इति पाठः ? यनि. शोधः (तु. आपश्रौ.)।

-क्तीः आपथ्रौ ७, ७, २; १९, १३, २; भाथ्रौ ७, ५, ६; वाथ्रौ १, ६, २, ७; वैथ्रौ १०, ६ : ६; हिथ्रौ ४, २, २०; २३, ८, ३९.
 अति(,ती)-मोक्ष^२-क्षाः आपथ्रौ ४, १४, १०; बौथ्रौ २, ११ : २४;
 -श्रणाम् बौथ्रौ १४, २० : २८;
 -क्षात् वैथ्रौ १६, २८ : ९;
 -अम् आपथ्रौ ४, १४, ९; १६, ८; १३, २५, १; भाथ्रौ ४, २२, १; वाथ्रौ १, १, ४, २९; वैथ्रौ ७, १४ : २; हिथ्रौ ६, ४, ३०;
 -क्षेषु बौथ्रौ २३, ८ : २; -क्षैः माथ्रौ १, ४, ३, १६.
 अति-मूर्ति- -तिना आथ्रौ ९, ८, १.
 अति/मृज्, अतिमार्जयति भाथ्रौ ६, १३, २.
 अति-मृत्यु^३- -त्युम् कौस् ६६, ११.
 आतिमार्थव^४- -वम् अथ्रौ ४, ३५^५.
 अति/या, अति(याहि) उस् ३, ६१.
 अ(ति>)ती-याय पागृ ३, १४, १०.
 अतियुक्तम्^६ शंघ ११६ : ५४.
 अति-रज(जस्-स्क)स्कन्ध^७- -न्धेषु अप ६५, १, २.
 अति-रथ^८- -थम् आपथ्र २, १३, ११.
 अति-रहस्य^९- -स्यम् आमिष्ट २, ४, १२ : ११.
 अति/राज्, (अति)राट् ऋप्रा ८, ७.
 अति-रात्र^{१०}- -त्रः आथ्रौ ६, ११, १; ८, १३, ३१; -त्रम्, -त्रयोः आथ्रौ;

-त्रस्य शांथ्रौ; -त्राः आथ्रौ;
 -त्राणाम् लाथ्रौ; -त्रात्, -त्रान् आथ्रौ; -त्राभ्याम् लाथ्रौ; -त्राय बौथ्रौ; -त्रे, -त्रेण, -त्रेभ्यः आथ्रौ; -त्रेषु काथ्रौ; -त्रैः काथ्रौ; -त्रौ आथ्रौ.
 आतिराज्य^१- -ज्यम् लाथ्रौ ८, १, १६.
 अतिरात्री- -त्री निसू ६, ४ : ११; -त्रीम् निसू ३, २ : १; १४; १६.
 अतिरात्र-चतुर्विंश^{११}- -शाभ्याम् लाथ्रौ १०, ८, ७; -शो निसू ५, १० : २; १६.
 अतिरात्र-चतुर्विंश-नवाह-त्रता(त-अ)तिरात्र^{१२}- -त्राः द्राथ्रौ ८, १, ३; लाथ्रौ ४, ५, ३; निसू ४, १२ : ४^१;
 अतिरात्र-चरम^{१३}- -मे आपथ्रौ १४, ७, २०; हिथ्रौ ९, ८, ४५.
 अतिरात्र-पशु- -शवः बौथ्रौ १६, ११ : ६; १९ : १; -शून् काथ्रौ १४, २, ११; बौथ्रौ १७, १ : १; १५; -शूनाम् बौथ्रौ २३, १३ : २०.
 अतिरात्र-प्रभृति- -तयः निसू ९, ८ : ६.
 अतिरात्र-ब्राह्मण^{१४}- -णम् बौथ्रौ २६, २२ : १६.
 अतिरात्र-भाव- -वः शांथ्रौ १६, २०, ५.

अतिरात्रमन्तः^{१५} निसू ८, ११ : १२.
 अतिरात्र-वत् वैथ्रौ १७, ९ : ३; वैताथ्रौ ३७, ६.
 अतिरात्र-विषुवत्^{१६}- -वन्तः काथ्रौ २४, ५, १७.
 अतिरात्र-सं(स्था>)स्थ^{१७}- -स्थम् निसू ७, ६ : ४.
 अतिरात्र-संमित^{१८}- -तम् आपथ्र २, ७, ४; हिथ्र २, २, २५.
 अतिरात्रा(त्र-अ)न्त^{१९}- -न्तः आथ्रौ ९, २, १३; -न्ताः आथ्रौ १०, १, १२.
 अतिरात्रा(त्र-अ)न्तर^{२०}- -रम् काथ्रौ २४, १, १२.
 अतिरात्रिक^{२१}- -कः निसू ८, ११ : २१; -कम् निसू ८, ११ : १३.
 अति-रात्रि^{२२}- -त्र्या अप्राय ६, ६.
 अति/रिच्, अतिरिच्यते आपथ्रौ २२, १५, ८; अतिरिच्येते वाधुथ्रौ ४, ६ : ५; अतिरिच्यन्ते आपथ्रौ २१, २३, ३; अत्यरिच्यत या १३, ९; अति...अरिच्यन्त वाधुथ्रौ ४, २६^{२३} : १; अतिरिच्येत काथ्रौ २५, १३, १; ४.
 अत्यरेक्ष्यत निसू ४, ७ : २७.
 अत्यरेचि काथ्रौ १२, ६, ११.
 अतिरेचयति काथ्रौ १३, ४, १४.
 अत्यरीरिचः वाधुथ्रौ ४, ६ : ३;
 अतिरीरिचः काथ्रौ १०, ६, २०^{२४};

- a) नाप. (मन्त्र-विशेष-) । भाथ्रौ. वाथ्रौ. वैथ्रौ. ह्रस्वान्तं पूष. । b) नाप. (सोमयज्ञ-विशेष-) । प्रास. । c) नाप. (सूक्त-) । साऽस्यदेवतीषे अणि प्र. उभयपदवृद्धिः । d) ऽर्थ्य-> -र्थ्यम् इति पाठः? यनि. शोधः । e) पाठः? अभिसुक्तम् इति शोधः (तु. अपु. २१९, ३३) । f) विप. । प्रास.>बस. । g) पाठः? (तु. सप्र. हिथ्र २, ३, ११ अधिरथम् इति पाठे.) । h) प्रास. । i) वैप १, परि. च द्र. । j) भावे. व्यञ् प्र. । k) द्रस. । l) ऽन्नः इति पाठः? यनि. शोधः । m) विप. । बस. । n) नाप. (प्रत्य-विशेष-) । o) पाठः? ते, रात्रिमन्तः इति द्वि-पदः शोधः (तु. संस्कृ. टि.) । p) विप. (अज-) । तुस. । q) षप. । r) मत्वर्थीयः ङ् प्र. ।

अत्यरीरिचम् आपश्रौ ३, १२, १५; अत्यरीरिचाम आश्रौ ८, १३, २६५.
 अति-रिक्त, क्त- -क्तः वैताश्रौ ३१, १०; -क्तम् आश्रौ १, ११, १५५; -क्तस्य काश्रौ २५, १३, १६; -क्ताः आश्रौ ९, १, ११; -क्ताम् बौश्रौ २७, १ : ११; -क्ताय वैश्रौ १७, १६ : ८; ९; -क्ते शाश्रौ ७, २७, २८; -क्तेषु आश्रौ ५, १०, ११.
 अतिरिक्त-ता- -तायै भाश्रौ ११, १४, १५.
 अतिरिक्त-पशु- -शुन् आश्रौ १२, ७, १०; आपश्रौ २१, २३, ४; हिश्रौ १६, ८, ७; १२.
 अतिरिक्त-वर्जम् काश्रौ ५, १०, ८.
 अतिरिक्त-सामान्य- -न्यात् द्राश्रौ १५, ३, १३; लाश्रौ ५, ११, १३.
 अतिरिक्त-सोम^१- -माः बौश्रौ २६, ९ : १५; -मेषु बौश्रौ २३, ८ : १७.
 १ अतिरिक्त-स्तोत्र^२- -त्राणि बौश्रौ १८, १५ : १६; २६, ३१ : १९; लाश्रौ ९, ५, २३; -त्रे काठश्रौ १६६; -त्रेषु बौश्रौ २३, १८ : १९; २९, २ : १०; द्राश्रौ ५, १, ३०; ७, १, २९; लाश्रौ २, ५, २५; ३, १, २८.
 २ अतिरिक्त-स्तोत्र^३- -त्राय हिश्रौ १३, २, २८.
 अतिरिक्ता(क्त-अ)क्^४- -क्तः विध

४५, १०; -क्तान् आमिग ३, ११, १ : ९.
 अतिरिक्तो(क्त-उ)क्य^५- -क्यम् आश्रौ ९, ९, १०; शाश्रौ १०, १३, २५; १५, ३, ४; -कथानाम् शाश्रौ १५, ६, ५; -कथानि आश्रौ ९, ११, १३; शाश्रौ १५, ८, ६; -क्येषु शाश्रौ ७, १४, ५; जैश्रौ १५ : १६; वैताश्रौ २७, २७.
 अति-रिच्य छुस् १, ७ : १३.
 अति-रिच्यमान- -नः बौश्रौ १८, १५ : १४५.
 अति-रेक- -कः काश्रौ २५, १३, १५; निस् १, ७ : २७; ४, १ : ३७; मीस् २, १, २६.
 अतिरेक-नामन्- -म या ४, २०.
 † अति/रुच्, अतिरोचते या ५, ५; अतिरोचसे या ३, ११५.
 † अति [ति] -रोक^६- -काः द्राश्रौ १०, ४, ८; लाश्रौ ३, १२, ७; -कान् माश्रौ २, १, १, ९; हिश्रौ ७, १, २५.
 अति-रौद्र^७- -द्रम् अप ७०^३, ११, २२.
 अ-तिर्यञ्च्- -र्यक् वाध १२, १२.
 अ-तिल-मिश्र, आ^८- -आः आमिग ३, ८, १ : ६; बौपि १, १४ : ६; -आभिः बौपि १, १५ : ७०.
 अ-ति (ल>) ला^९- -लाभिः हिपि १६ : ३.
 अति-लोभ^{१०}- -भात् बोध ४, ८, १.
 अति/वच्, अतिवाचयति बौश्रौ ६,

२ : २२; १९ : ५; १२; २१ : ११; ९, १० : १६.
 अति-वाच्य बौश्रौ २१, ८ : २३.
 १ अत्यु(ति-उ)क्त- > अत्युक्ता (क्त-अ)नुक्त-हीन^{११}- -नेषु बौश्रौ २७, १ : ६.
 अति/वद्, अतिवदति वाधुश्रौ ३, ७ : ४; अतिवदेत् शाश्रौ १७, १७, १४.
 अति [ति] -वाद्^{१२}- -द्म् वैताश्रौ ३२, २६; -दान् विध ९६, १९.
 अति/वनुष्य, † अति... वनुष्यति या ५, २५.
 अति-वर^{१३}- -रः आपश्रौ ५, ११, ४.
 अति-वरण- अति/वृ(वरणे) द्र.
 अति-वर्धन- अति/वृध् द्र.
 अति/वल्, अतिवालयतात् बौश्रौ ६, ११ : १६.
 अति-वाल्य^{१४} बौश्रौ ३, ६ : १३; १७; ६, ११ : १९; १९ : २०; २१ : २१; बौपि ३, १, १६.
 अति/वल्ग, अतिवल्गयति आपश्रौ ६, ११, ३; वैश्रौ २, ५ : ६; हिश्रौ ३, ७, ८६.
 अति/वह् (वहने), अतिवहेयुः द्राश्रौ ९, १, १; लाश्रौ ३, ५, १.
 अत्यु(ति-उ)ह्य काश्रौ ९, २, १६.
 अति/वा, अतिवाति आपध २, १९, १; हिध २, ५, ७३.
 अति-वाच्य अति/वच् द्र.
 अति-वात^{१५}- -तः अप ६७, ७, १; -ते कौग ३, ९, २४; शां ७, ७, २८.

a) कस. । b) विप. । बस. । c) 'कथ्या' इति पाठः? (तु. सप्र. उत्तरं स्थलम्) । d) वैप १, परि. च द्र. । एती^{१६} इति हिश्रौ. (वैतु. सपा. मै ३, ६, १) । e) प्रास. । f) विप. । तस. उप. तृस. । g) द्रस. > तृस. । h) भाप. । एती^{१७} इति वैताश्रौ. । i) नाप. (हीन-वर- [अप्रशस्ता- दक्षिणा-]) । अति-तिरस्कृतो वर इति कृत्वा प्रास. (वैतु. रुद्रदत्तः Renou L JVS] च 'अतिगतो वरम्' इतीव?, धूर्तस्वामी = बहुमूल्य-इतीव?) । j) =उपरि नीत्वा इति भाष्यकृत ।

अति-वारि-भय^a- -यम् अप ५९,
१,७.

अति√विच्छ्, अतिविच्छयन्ति
आपश्रौ २१,८,७^b.

अति-वि√ह्ना > जा, अतिविजानन्ति
वृदे २,१९.

अति√वित्स्, अतिवित्सयन्ति^c बौश्रौ
६, १२ : १६; हिश्रौ १६, ३,
४०^d, अतिवित्सयेत् बौश्रौ
२१,११ : १७.

अति-वित्सन- -ने बौश्रौ २१, ११ :
१७.

अति√विष्, व्यष्, अतिविष्यन्ति
शाश्रौ १७, ३, ६५; आपश्रौ १६,
१९, १; वैश्रौ १८, १६ : १०;
हिश्रौ ११, ६, ३१; अतिविष्येत्
शाश्रौ १७, ५, ७; १५, ५.

अतिव्यात्सीः आपश्रौ २१, १९,
१४; बौश्रौ १६, २२ : ३; हिश्रौ
१६, ६, ३६.

अति-विषे^e आपश्रौ २, १४, ११;
३, ८, १.

अति-न्याधिन्^f -धी कौस् ७१,
६१.

अति-वि√राज्, अतिविराजति अप
१३, ५, २.

अति-वि√लम्ब् > अतिवि-लम्बित-
-तम् विध ११, ६.

अति-वि√वृत्, अतिविवर्तयेत् ऋप्रा
३, ३३.

अति-वि√स्तु > अतिवि-स्तर- -रः
विध ५, १९३.

अति-वीत-रस^g - -सः कप्र २, ५,
१३.

अति√वृ (वरणे), अतिवृणीते
आपश्रौ २४, ५, ७; अतिवृणीत
बौश्रौ २४, १२ : ४.

अति-वरण- -णम् बौश्रौ २४, १२ :
६; ८.

अति-वृत- -तः बौश्रौ २४, १३ :
४.

अति√वृत्, अतिवर्तते कौस् १५,
१६; विध २७, २६; नाशि १, ६,
२०; पावा १, ४, ५६; अतिवर्तन्ते
बौश्रौ ११, ६ : ३२; १२, ७ :
४३.

अति√वृष्, अतिवर्षते बौश्रौ १०,
१८ : १; ११; वैश्रौ १८, ११ :
११; १९.

अति-वर्धन- -नम् अप ७०^h, १८, ४.

अति-वृद्ध- -द्धस्य बौश्रौ १०, १८ :
१; कप्र १, ६, ५.

अति-वृष्टिⁱ - -ष्टिः अप ५९, १, १४;
१७; ७०ⁱ, १७, ३; -ष्टिम् अप
५९, १, ३; -ष्ट्या अप ७०^j,
१७, २.

अति-वेल^k - -लम् बौश्रौ २, १२ :
१७.

अति-व्यक्त^l - -क्तम् तैप्रा १७, ८.

अति√व्यथ् > अति-व्यथन- -ने पा
५, ४, ६१.

अति-व्यवहार^m - -रः आपध १, २८,
४; हिध १, ७, ४०.

अति-व्य(वि√अस्(क्षेपणे) > अति-
व्य(वि-अस्)स्त- -स्तम् तैप्रा २,
१२.

अति√व्रज्, अतिव्रजन्ति आम्रिण् ३,
९, १ : २०; बौपि २, ६, ९ⁿ;

अतिव्रजेत् आश्रौ ३, १, १८.

अति-व्रजत् - -जसु आश्रौ ४, १०, ४.

अति-व्रज्य आश्रौ २, ३, ११; ४,
१०, १; ४; ६; ९; ११, ३^o;
वैताश्रौ ८, १९; १५, १७; १६,
७; २३, १९; कौस् २४, १३;
अप्राय २, ३.

अति√शंस्, अतिशंसन्ति शाश्रौ १२,
२, १०; अतिशंसेत् शाश्रौ १३,
७-९, ३; १०, २; १२, ५; वैताश्रौ
३५, २; अतिशंस्यात् माश्रौ २,
५, २, १८; ३, ४; ६; १८.

अति-शंसन- -नम् आश्रौ ७, १२,
३; -नाय वैताश्रौ ३५, १४.

अति-शस्य आश्रौ ६, ७, २.

अति-शक्ति^p - -वितः कौस् ७४, २३.

अति-शक्ती^q - -री ऋअ २, २, ४३;
शुअ ४, १०२; १७९; अअ ४,
१४; ३४; ५, ११; २८; ८, ७;
९, ३; १०; ११, २; १२, १^r;
१४, २; १५, ११; १७, १; १८,
४; १९, १६; ५८; २०, ९५;
ऋप्रा १६, ८२; १८, ५१; उनिस्
२ : १७; -र्यः ऋअ ४, ७; अअ
५, २४; १९, १७; -र्यौ ऋअ
२, १, १२९; शुअ २, ४०२.

अतिशक्ती-ग(भं >) भा^s - -भां
अअ ३, २८.

अतिशक्ती-विरा(ज् >) ट्-शक्ती-
(री-अ)ष्टि- -ष्टयः अअम् १.

अति-शाकर^t - -रम् ऋअ २, १,
१३७; २, २२.

अतिशाकर-ग(भं >) भा^u - -भां
अअ ६, ६८; ७, २०; ९, १; १३.

a) प्रास. > पंस. । b) सप्र. अतिविच्छयन्ति <> अतिवित्सयन्ति इति पाभे. । c) वित्सन्ति

इति पाठः ? यनि. शोधः (तु. बौश्रौ.) । d) गस. केनन्तम् । e) वैप १, परि. च द्र. । f) विप. (चरु) ।
प्रास. उप. बस. । अरसः इति काचित्कः मूको. । g) नाप. (ईति-विशेष-) । h) प्रास. । i) अतिहरेयुः इति
R. पाभे. । j) विप. (दक्षिणा-) । प्रास. । k) नाप. (छन्दोविशेष-) । प्रास. । l) विप. । बस. ।

१;३.
अतिशाकरा(र-अ)तिजागत-ग
(मं>)भा^३-भा^३अग्र १०,६.
अति√शाङ्क्, अतिशङ्केत द्राश्रौ ४,
१,११; लाश्रौ २,१,१०^b.
अति-शङ्कमान-नः निसू २, १:
२१.
अति√शद्, अतिशेदुः^० बौश्रौ १८,
१५:१३.
अति√शम् > अति-शम- >
√अतिशमाय, अतिशमायेत
माश्रौ ३,२,१२^२.
अति-शय- अति√शी द्र.
अति-शस्य अति√शंस द्र.
अति-शिथिल^d-लः कप्र २,५,१३.
अति√शिष्, अतिशिनष्टि बौश्रौ २,
२:२५; ९, ३:३३; १०, ६:
१४; हिश्रौ १०,१,२४; आमिग
२, २,५:२२^{१०}.
अतिशिश्यते, अतिशिश्यन्ते
बौश्रौ; अत्यशिश्यत वाधूश्रौ ४,
७०:२.
अति-शिष्ट,ष्टा-ष्टः बौश्रौ २५,
१८:५; -ष्टम् बौश्रौ; -ष्टस्य
बौश्रौ २०, २१:२७; -ष्टा:
बौश्रौ; -ष्टान् बौपि ३, २,
१२^१; -ष्टानाम् बौश्रौ; -ष्टानि
निसू ४, १०:८; -ष्टाम् बौश्रौ;
-ष्टाय बौश्रौ १४, २६:२; ६;
-ष्टायै बौश्रौ; -ष्टे बौश्रौ ८,८:
२३.

अति-शिव्य बौश्रौ १६, ३:५.
अति-शेष-षान् बौश्रौ ९,२:३१.
अति√शी, अतिशेते आपश्रौ २, ३,
३; ४; भाश्रौ २, २, १३; १४;
हिश्रौ १,६, ९७; शोध ८६.
अति-शय-ये शुप्रा ५,२; ऋत ३,
७, ६.
आतिशाथिक-कः, -काव
पावा २,१,६९.
अतिशय-नृतीय^६-येन आपशु
३,३; हिशु १,४२.
अति-शायन-ने पा, पावा ५, ३,
५५.
अति√शीय^h, अतिशीयन्ते^l वाश्रौ
३,३,१,४; ११.
अति√शुष् > अति-शु(ष्क>)ष्का-
-ष्काः अप २६,४,४.
अतिश्व-पा ५,४,९६.
अतिश्वन्-(> आतिश्वान^l-पा.)
पाग ४,२,८०^k.
अति√ष(<स)ञ्ज > अति-ष,स
क्त,क्ता-क्ता अप्रा ३, २;
१८^१; -क्ताः आपश्रौ १७,
८,२; वैश्रौ १९, ५:४५; हिश्रौ
१२,१,१९.
अति-षज्य काठश्रौ ५४.
अ(ति>)ती-षङ्क^l-ङ्गाः निसू २,
२:२६; वाध २८, १२; विध
५६, १०; -ङ्गणाम् लुसू २,
१०:२५; ११:१५.
अति√षि(<सि)ञ्च्, ङ्च्, अति-

षिञ्चेत् बौश्रौ १४,२३:२८.
अति-षोडश^m-शाम् जैग १,१२:२.
अति√ष्टु, स्तु, अतिष्टुयुः लुसू
१, ७:२०; अतिस्तुयुः माश्रौ
३, ७, १.
†अति-ष्टुत-तम् द्राश्रौ ४,१,७;
लाश्रौ २,१,६.
†अ-तिष्ट(त् >)न्तीⁿ-न्तीनाम्
या २,१६^१.
अति√ष्टा, अतितस्थौ या १२,
३०^१.
अति-ष्टा^o- > आतिष्ठय-ष्ठयम्
बौश्रौ १८,१९:१५^३; १६; १७.
अतिष्टा-काम-मस्य काश्रौ
२१,१,१.
अति-संवत्सर^d-रम् बौध २, ६,
१७; गौध ३,३५^p.
अति-सक्त-अति√षञ्ज द्र.
अति-संतानक^d-काः अत्र ५२,
५,५.
अति-सं√धा, अतिसंधीयते नाशि
१,५,१८.
अतिसं-धाय गौध १२,१.
अति-संध्या^d- > ष्या-समीप-
तस् (:) कप्र २,६,१.
अति-सरस्वती^d-ती मागृ २,
१३,६^१.
अति-सर्ग-प्रभृ. अति√सृज् द्र.
अति-सांवत्स(र>)री^p-रीम् गौध
१२,२७.
अति-सांतपन^r-नम् विध ४६,२१.

a) द्रस.>बस. । b) इतिशङ्केत इति पाठः? यनि. शोधः (तु. द्राश्रौ.) । c) षेदुः इति पाठः? यनि. शोधः (तु. संस्कर्तुः शोधपत्रम्, सप्र. तैब्रा [२, ७, १४, २] प्र प्र...अंशोरन् इति च) । d) प्रास. । e) सपा. हिगृ २, ६, १७ अवशिनष्टि इति पाभे. । f) अवशिष्टान् इति मैसू. । g) षस. । h) वैप १, ४६५ g द्र. । i) पाभे. वैप १ परि. अतिशीयन्ते मै २, ६, १^२ टि. द्र. । j) =देश-विशेष-? । k) पाका. तु अतिश्वन्- इति । l) व्यप. (साम-विशेष-) । m) विप. (कुमार-) । कान्ताद्यर्थायः प्रास. । n) विप. (काष्ठा-) । तस. । o) वैप १, परि. च द्र. p) 'सांख्यस्' इति क्वाचित्कः पाभे. । q) विप. (कुसीद-वृद्धि- L तु. मनुः ८, १५४) । प्रास. । r) नाप. (कृच्छ्र-व्रत-) । प्रास. ।

अति-साय^a- -यम् विध ६३, ७;
६८, ४८;
अति-सुहित^b- -तः बौध २, ७, ८;
-तौ आपश्रौ ४, २, ४.
अति-सूक्ष्म^c- -क्ष्मम् विध ९७, ३.
अति√स्व > अति-सार^d- -राः अप्रा
३, १, ७^f.
अति-सार^d-
अतिसारकिन्^e- पा ५, २, १२९.
†अति-सारि (न >) णी^f- -णी^g
आमिग २, १, ४ : १५^h; हिग
२, ४, २.
अती-सार^d- पावा ३, ३, १७; -रेण
आपश्रौ ९, २०, १.
अति√स्वज्, अतिसृजति माश्रौ
१, १, १, ३१; कौस् २४, १९;
४९, १; ६; ९२, १४; अति-
सृजतः आश्रौ ५, २, ११;
अतिसृजन्ति बौग २, ५, ७०;
अति...सृजन्ति वौश्रौ १२, १८ :
८; १०; †अतिसृजामि कौस्
२४, २०^f; अप १८^f, १, ११^f;
अअ १६, १; अतिसृज आपध
२, ७, १५; हिध २, २, ३४;
अतिसृजेत् आश्रौ १, १२, १२;
२, ३, ११; ५, १०, १; आपध १,
८, ३०; हिध १, २, ११८; अअ
१५, १२^f.
अतिसर्जयते आश्रौ १, १२, ११;
अतिसर्जयते आश्रौ २, ३, १०.
†अति-सर्गⁱ- -र्गम् आपश्रौ १७,
१३, २; हिश्रौ १२, ४, ४.

अति-सर्जन- -नम् आश्रौ २, ४, २५.
अतिसर्जना(न-आ)दि- -दि
आश्रौ १, १२, २१.
अति-सर्जित- -तौ आश्रौ ५, २, ११.
अति-सृजत्- -जन् द्राश्रौ २, ४, १४;
लाश्रौ १, ८, १०.
अति-सृज्य आश्रौ २, ३, ९; कौस्
९, ९.
अति-सृष्ट- -†ष्टः आश्रौ; -ष्टस्य
आग ३, १०, ८^f; -ष्टाः ऋप्रा
१५, २२; -ष्टान् आपश्रौ १, ३,
१०; -ष्टेन आपध २, ७, १५.
अति√स्पृ, अतिसर्पति या ३,
२०^f; शौच २, १०, २; अति-
सर्पेत् काठश्रौ १०६; वैश्रौ १४,
१२ : २; द्राश्रौ ३, १, १३;
लाश्रौ १, ९, १४.
अत्यस्पृत् आश्रौ ३, ११, ७;
माश्रौ ३, २, २^f.
अति-सौहित्य^b- -त्यम् विध ६८,
४७.
अति√स्कन्द, अति...स्कन्दयामि
हिग १, २५, २^f.
अति-स्तुति^b- -तयः या १३, १.
अति-स्थूल^b- -लः अप २७, २, २;
-लम् माश्रौ ७, २, ८; हिश्रौ ४,
१, ३०; अप ३, २, ३; विध ९७,
२; शुप्रा ३, ८१^f.
अति√स्पृश् > अति-स्पर्श- -शः
ऋप्रा १४, २६.
अति√स्त्रु, अतिस्रावेत्^k अप्राय २, ५.
अति-स्वन्- अतिश्वन्- द्र.

अति√स्वृ > अति-स्वार^l- -रः वृदे
८, ११६; नाशि १, १, १२;
-रम् वृदे ८, ११३; -रस्य नाशि
१, ७, २; -रे नाशि १, ७,
१०; -रेण नाशि १, ७, ८.
अति-स्वार्य^l- -र्यः वृदे ८, १२०.
अति√हन्, अतिहन्त्यात् आपश्रौ ६,
१४, १२; माश्रौ ५, १, ८, ६;
हिश्रौ ३, ७, ७५-७७; माशि ६,
६.
अति-घातम्^m माश्रौ ५, २, ५, ९.
अति-हन्- -हा सु २२, १.
अति√हा (गतौ) > अति-हाय
आपश्रौ ६, ११, ४; २४, ११, १३.
अति√हृ, अतिहरति माश्रौ; अति-
हरन्ति वाश्रौ; अतिहर वैग्य; अति-
हरेत् आश्रौ; अतिहरेयुः लाश्रौ
३, १२, १ⁿ.
अति-हरत्- -रन् शाश्रौ १७, १६,
१-४; माश्रौ २, २, १, ४०.
अति-हार- -रः वाश्रौ १, ७, ४, ९.
अति-हृत- -तः द्राश्रौ १५, १, ५;
लाश्रौ ५, ९, ४.
अति-हृत्य शाश्रौ २, ८, २२; २३.
अति-ह्रस्व^o- -स्वः अप २७, २, २;
-स्वम् अप ३, २, ३.
अती(ति√इL गतौ J), †अत्येति
आपश्रौ; †अति...एति^o आश्रौ;
अतियन्ति आपश्रौ २१, ७,
११^p; अत्येषि कौस् २, १^f;
१३७, ३२; अतीताम् आपमं १,
६, १०; †अतीहि बौश्रौ; †अति-

a) प्रास. । b) विप. । प्रास. । उप. = नृस- । c) वैप १, परि च द्र. । d) नाप. (व्याधिविशेष-) ।
e) मत्वर्थीयः इनिः प्र. कुक् आगमश्च । f) विप. (धेनु-) । गस. । g) सपा. अतिसा<> अत्यासा इति
पाभे. । h) धारि इति पाठः? यनि. शोधः (तु. हिग.) । i) गस. उप. घजन्तम् । j) संस्कर्तुः सूच्याम्
अत्यृषभ- इति चिन्त्यम् । k) अतिन्न इति स्यात्? । l) वैप २, ३खं. द्र. । m) गस. णमुलन्तम् ।
n) सपा. द्राश्रौ १०, ४, १ अनुहरेयुः इति पाभे. । o) सपा. शाश्रौ १, ६, ३ अधि...एमि इति पाभे. ।
p) पाठः? अतिनयन्ति इति शोधः (तु. C.) ।

...इहि^a आपथ्रौ ३, १४, २^३;
भाश्रौ ३, १३, १^३; हिश्रौ २, ६,
३४^३; अति(इहि) साश्र १,
२२३; ऋअत्यायन् शाश्रौ १५,
१७, १; अतीयात् आपथ १,
३१, १४^b.
अतीयते ऋप्रा ११, ३, ५.
अती(ति-इ)ल, ता- -तः पाय; -तम्
काठश्रौ २१^३; वाधूश्रौ २, १० :
९; बौशु ५ : ५; -तात् नाशि
२, ८, २; -तान् बौश्रौ २२, ८ :
२७; २८; जैश्र २, ८ : २५; बौशु
६ : १७; -तानाम् बौश्रौ २२,
७ : १७; विध २०, १९; -तानि
शाश्रौ ३, २१, १२; -ऋताम् काय
२५, ५; -ताय वाधूश्रौ २, १० :
८; -तायाम् लाश्रौ ८, ३, ७;
शंघ १९३; विध १७, १९;
-तासु आश्रौ ५, १३, १५; वैश्रौ
१, १६ : ५; -ते शाश्रौ; -तेषु
आमिग २, ७, ९ : ४१; भाग ३,
२१ : ४; विध २२, ४४.
अतीत-पूर्व-भाग^c - गेभ्यः
वेज्यो २२.
अतीत-व्यवहार^d - रान् बौध
२, २, ३८.
अतीत-स्वार^d - रः नाशि १,
८, ३^e.
अतीत-होम^f - मान् वैश्रौ २०,
१५ : ४.

अती(ति-इ)व्य आश्रौ १२, ११, १.
अत्य(ति-अ)य- पाग ५, ४, ३४;
-यात् शंघ १, ३, ८; -ये वैश्र
५, १३ : १; वृदे २, ६५.
आत्यधिक- पा ५, ४, ३४; -कः
शंघ ३०३; -के वाध १९, ४७^३;
गौध १३, ३०.
अत्या(ति-आ)य- पा ३, १, १४१.
अती^g माशि ११५.
अती-काश- अति ✓ काश द्र.
अ-तीक्ष्ण- पा ६, २, १६१.
?अतीतरस्मिन्^h अप्राय ५, १.
?अतीतैवⁱ वाधूश्रौ ४, ५५ : ४.
अती-देश- अति ✓ दिश द्र.
अती(ति-इ)न्द्रिय^j - -य विध १, ५१;
-यम् विध ९७, २; वैध १, ९, १५.
अती-मोक्ष- अति ✓ मुक् द्र.
अती-रोक- अति ✓ रुक् द्र.
अ-तीर्थ- -थे वाश्रौ ३, ३, २, १५;
बौपि ३, ५, २; आपथ २, २०,
२०; हिध २, ५, १०५; -थेन
द्राश्रौ ७, ४, ६; लाश्रौ ३, ४, ५;
गोश्र १, २, १७.
अती(ति-इ)व अत्र ७०^३, २१, ४; ७०^३,
७, ३; ७१, २, ५; विध १, ३९.
अती-वाद- अति ✓ वद् द्र.
अती-वङ्ग- अति ✓ षञ्ज द्र.
अती-सार- अति ✓ स्र द्र.
अ-तुङ्ग^k - ऋम् आपथ्रौ १, २५, ४;
भाश्रौ १, २६, २; हिश्रौ १, ६, ४५.

अ-तुदत्- -इन् बौध २, २, ७४; ३,
२, २.
?अ-तुर्मुह्य^l - -ह्यम् माश्रौ ५, १, ७, ४.
अ-तुल, ला^m - -लम् वाध २८, ४;
बौध २, २, ५७; अत्रभू ८; पाशि
३२; -लाम् कौशि ८१.
अ-तुलो(ला-उ)पमाⁿ - -माभ्याम्
पा २, ३, ७२.
अ-तुल्य- -ल्यः वैश्र ५, ११, १;
-ल्याः मीसू १०, ३, ५५;
-ल्यानाम् शाश्रौ ५, १९, ४;
-ल्येषु मीसू १२, १, १.
अतुल्य-त्व- -त्वात् अप्रा १, १, ६;
मीसू २, २, २६; ३, २, ३५; ६,
३६; ८, ८; ६, १, २४; ९, ४,
३३; १०, ८, २८.
अ-तुल्या(ल्य-अ)र्थ^o - -थे वाश्रौ १,
१, १, ६९.
अ-तुष्ट- -ष्टे ऋअ ३, १.
अ-तूपर^k - -रः आपथ्रौ १०, २९, ५.
अ-तूर्ण^k - -र्णः या ९, १००; -र्णे
या १०, ३२.
?अतूर्णद(त >) ता^p - -त्ता कौस्
६२, २१.
ऋअ-तूर्त^p - -र्तः आश्रौ १, ३, ६;
शाश्रौ १, ४, २०; ७, ९, ३; या ९,
१००; -र्तम् सु १४, ५; -र्ते
या १०, ३२०.
अतूर्त-पथिन्^p - -ऋभ्याः या ११,
२३०.

a) पाभे. वैप १ परि. अति... एतु टि. द्र. । b) पाभे. पृ ८२ ग् द्र. । c) कस. उप. षस. । d) विप. ।
वस. । e) अतीतः, स्वारः इति लासं. । f) कस. ? । g) वसतीवरीः इत्यत्र पूर्वान्यावयवः परामृष्टः द्र. । h) पाठः ? इति
चेद् इतरस्मिन् इति शोधः । i) देवास्यैव नातीतैव त्रिददर्श इति पाठः ? देवाः देवाँस तेन (परमेष्ठिना) न
अप्देतवै वै ददर्श (परमेष्ठी) इति शोधः । प्रकृते स्थले देवा होवाच इति पाठोऽपि ? देवाः देवान् स (परमेष्ठी) होवाच
इति च तत्र शोधः । j) विप. । प्रास. । k) विप. । तस. । l) भाप. (*अवैमत्य-, संज्ञान-) । पाठः ? *अ-
द्विर्मुह्य- [तस.] > -ह्यम् इति शोधः । उप. भाप. < *द्विर्-मुख- (वैमत्येन विभिन्न-देशाभिमुख-) । एतदनु वैप १,
९० ० टि. यथापेक्षं शोधः स्यात् । m) तस. > दस. । n) तस. > कस. । o) पाठः ? आ (आऽग्न
इत्यनेनाऽन्वितः), तूर्णइत्ता इति द्वि-पदः शोधः । p) वैप १, परि. च द्र. ।

अ-तृच-वर्जम् वैताश्रौ ३९, ३.
 अ-तृण^१- -णः काश्रौ ९, ६, ३६.
 अ-तृण्ण- -णम् आपश्रौ १६, २२, ३.
 अ-तृप्ति- -सिः आपध २, १, ३; हिध
 १, ९, ३.
 अ-तृषित- -ताय कौस् २७, १०.
 अ-तृष्य^२- -ष्याः हिश्रौ ६, ७, ८;
 काश्रु २७, ३; हिश्रु १, २९, १.
 अ-तृजस्^३- -सानाम् बौध १, ५, ४३.
 अत्क- ✓अत् द.
 अत्कील^४- > आत्कील- -०ल आश्रौ
 १२, १४, ६; आपश्रौ २४, ७, ४;
 ५, ९, ११; बौश्रौप्र ३५: ४.
 अत्कील-वत् आपश्रौ २४, ७, ४; ५;
 ९, ११; बौश्रौप्र ३५: ४.
 अत्तवे प्रभृ. ✓अद् द.
 अत्न-, अत्य- ✓अत् द.
 अत्यं(ति-अं)हस्^५- -हाः तैप्रा १६,
 २८^६.
 अत्य(ति-अ)त्तर^७- -राः काश्रु ९, ९;
 माश्रु १, ४, ६; वाश्रु ८, ६.
 अत्य (ति-अ) ग्निष्टोम^८- -मः आश्रौ
 ६, ११, १; काश्रौ १०, ९, २७;
 १२, ३, २२; बौश्रौ २४, ४: ८;
 वैश्रौ १६, २८: १७^९; द्राश्रौ १३,
 ४, १७; लाश्रौ ५, ४, २४; वैश्रु
 १, १: १०; गौध ८, १८; -मम्
 शाश्रौ १५, ५, १; बौश्रौ १४,
 २०: ९; निस् ९, ६: ३४;
 -मस्य बौश्रौ २४, ४: १०; -मे
 वैश्रौ १७, ६: ९; हिश्रौ १०,
 ८, ४७; वैताश्रौ २५, १.
 अत्यग्निष्टोम-वर्जम् वैताश्रौ २६, १५.

अत्य(ति-अ)ग्र^{१०}- -ग्रम् बौश्रौ १,
 १९: २४; भाश्रौ ३, ६, २; वैश्रौ
 ७, ६: ७; हिश्रौ २, ४, २३;
 आमिश्रु १, ६, ३: १३^१.
 अत्य(ति-अ)ङ्ग^{११}- -ङ्गानि अप ७०^२,
 १०, ३.
 अत्य(ति-अ)ञ्ज, अत्यजेयुः द्राश्रौ ९,
 २, २; लाश्रौ ३, ६, २.
 अत्यजत्- -जन् शंध २२६.
 अत्य(ति-अ)णु^{१२}- -णुम् भाश्रौ ७, २,
 ८; हिश्रौ ४, १, ३०.
 अत्य(ति-अ)ति-घर्म^{१३}- -र्मः आपश्रौ
 २१, १२, ३; हिश्रौ १६, ४, ३५.
 अत्य(ति-अ)द्भुत^{१४}- -तम् अप ३७,
 ९, १; ७०, १०, ३; ७२, ५, १;
 ६, ५; वृदे ६, २४.
 अत्य (ति-अ) नु✓वच् > अत्यन्-
 (नु-उ)क्त- -क्तम् आपश्रौ ३, ११, २;
 बौश्रौ १, २१: १०; भाश्रौ ३,
 १०, २; वाश्रौ १, ३, ७, २०;
 हिश्रौ २, ६, ३.
 अत्य(ति-अ)न्त^{१५}- -न्तम् आश्रौ.
 आत्यन्तिक^{१६}- -क्तम् अप ६०,
 १, ६; -काः बौश्रु १, २, ६३.
 आत्यन्तिकी- -कीम् कप्र
 १, ९, १३.
 आत्यन्तिक-फल-प्रद^{१७}-
 -दम् वाध २९, २०.
 अत्यन्त-कामिन्- -मिना अप २३,
 १२, ५.
 अत्यन्त-कुसीदि-कुल^{१८}- > °लीन-
 -नाः या ६, ३२.
 अत्यन्त-ग- पा ३, २, ४८.

अत्यन्त-इरिद्व^{१९}- -इः शंध ३७७:
 १३.
 अत्यन्त-नानात्व- -स्वम् निस् ५,
 ३: ३.
 अत्यन्त-प्रतिषेध^{२०}- -धः काश्रु ६, ६.
 अत्यन्त-प्रदेश^{२१}- -शाः आपश्रौ १२,
 ७, १२; १७, १७; २०, २२; १५,
 २, ८; बौश्रौ २८, ३: ७; भाश्रौ
 १, १, ९; ४, ७; हिश्रौ २४, १,
 १३; हिपि ४: ६; आपश्रु ३, १४;
 हिश्रु १, ५३.
 अत्यन्त-विलम्बित^{२२}- -तम् याशि
 १, ४६.
 अत्यन्त-शस् (:) बौध १, २, ३३.
 अत्यन्त-संयोग^{२३}- -गे पा, पावा २,
 १, २९; ३, ५.
 अत्यन्त-सहचरित^{२४}- -ते पावा ८,
 १, १५.
 अत्यन्ता (न्त-अ) पर-दृष्ट^{२५}-
 -ष्टानाम् पावा ३, १, २.
 अत्यन्ता(न्त-अ)पह्व^{२६}- -त्रे पावा ३,
 २, ११५.
 अत्यन्तीन- पा ५, २, ११.
 अत्यन्तो(न्त-उ)पहत^{२७}- -तम् विध
 २३, १^{२८}; २; -तस्य विध २३, ६;
 -तात् विध २३, ४४; ५४, २;
 -तानाम् विध २३, ४२; गौध
 १, ३६.
 अत्यन्ते(न्त-इ)षीका^{२९}- -काः कौस्
 २१, १४.
 अत्य(ति-अ) भिषुत्य^{३०}- -त्यम्^{३१}
 आपश्रौ १४, २०, ३; वैश्रौ २१,
 ६: ३^{३२}.

a) विप.। बस.। b) वैप १, परि. च द्र.। c) विर.। तस.। d) व्यप. (ऋषि-विशेष-). व्यु. ?। e) विप.। प्रास.।
 f) नाप. (याग-विशेष-). प्रास.। g) प्रास.। h) विप.। तत्रभवतीयष् ठञ् प्र. उलं. (पा ४, ३, ६०)। i) विप.। कस. >
 उस.। j) कस. > पस.। k) कस.। l) कस. उप. = विमान-। m) कस. > तस. > सस.। n) °यन्त्योप° इति पाठः ?
 यनि. शोधः (तु. उत्तरं स्थलम्)। o) पाठः ? अत्यन्ता- [मौजपरिधानाऽतिगताऽवसानभागा-] > न्ताः [द्वि ३], इषीकाः
 इति द्वि-पदः शोधः। p) सप्र. हिश्रौ १५, ५, २२ अभिषुत्यम् इति पाठे.। q) सपा. °पुत्यः इति पाठः ? यनि. शोधः।

अत्य(ति-अ)य- अती(ति/इ) द्र.
 अत्य(ति अ)र्थ^०- र्यम् अप ५२, ६,
 २; ५८^२, २, १; ६४, ७, १०;
 ६९, ३, २; ७०, १, ६; ७०^३, ७,
 २२; ७१, १२, ४; शंघ ८३.
 अत्यर्थ-व्यभिचारि(न >)णी^०-
 -णीम् शंघ ३३४.
 अत्य(ति-अ)र्षुद^०- दम् अप ४८,
 ६६.
 अत्य (ति/अ)र्ह, ऋमति... अर्हात्
 आश्रौ ३, ७, ९; ६, ५, १९;
 शाश्रौ ९, २०, २७; आपश्रौ
 १७, २१, ७; हिश्रौ १२, ६,
 २६; अप ३८, २, ५; ऋमति-
 (अर्हात्) काश्रौ २२, ५, १३;
 आम्रिग २, ५, १ : २७; वैग ३,
 १७ : ८; ४, १४ : ३; जैग २,
 ९ : ३.
 अत्य(ति-अ)ल्प^०- ल्पम् अप ६७,
 ३, ३.
 अत्य(ति/अ)शु (भोजने) > अत्य-
 (ति-अ)शान- -नात् विध ९९,
 १९.
 अत्या (ति-आ)श-> अत्याश-परी-
 वाद^०- -दौ आपध १, २३, ५;
 हिध १, ६, १३.
 अत्य(ति-अ)शित^०- -ताः भाश्रौ ७,
 २३, ११.
 अत्य(ति-अ)ष्टि^०- -ष्टयः अत्र २०,
 ६७; उनिस् ५ : २६; -ष्टिः निस्

१, ५ : ५; शुअ ४, १८१; अत्र
 २, १०; ३, १५; २७; ४, ३८; ५,
 ३; ११; १३, ३; १४, २; १७, १;
 ऋप्रा १६, ८४; उनिस् २ : १७;
 -ष्टिम् शुअ १, ५४१; -ष्टी शुअ
 १, २३१; अअ १३, ३.
 आत्यष्ट^०- -ष्टम् ऋअ २, १,
 १२७; ९, १११; अत्र २०,
 ७२^१; ७५^१.
 अत्यष्टि-ऋच्^१- -ऋचः ऋअ ४, ७.
 अत्य (ति/अ)स् (भुवि), अत्यस्तु
 आश्रौ ४, ३, २^१.
 अत्य(ति/अ)स् (क्षेपणे), अत्यस्यति
 माश्रौ २, ३, ४, १९; जैश्रौ ९ : ३.
 अत्य(ति-अ)स्त^१- -स्तम् निस् ३,
 ११ : १७.
 ? अत्यसा बौश्रौ १८, ४५ : ११.
 ? अत्यस्यवः वैताश्रौ १६, १७^१.
 अत्या (ति-आ) / कृ, अत्याकुरुतात्
 बौश्रौ १२, १२ : १४; अत्या-
 कुर्यात् बौश्रौ २१, २१ : १७.
 अत्या-करण- -णे बौश्रौ २१, २१ :
 १६.
 अत्या(ति-आ) / क्रम्, अत्याक्रामति
 भाश्रौ २, १३, ७; माश्रौ १, ३,
 १, १८; हिश्रौ २, १, ३३;
 अत्याक्रामेत् बौश्रौ २०, १२ :
 २०; २१; २२, ११ : १६; २५,
 ३१ : ८.
 अत्या-क्रमण- -णे बौश्रौ २०, १२ :

२०; ३० : ८; २२, ११ : १५.
 अत्या-क्रम्य बौश्रौ १, १६ : २; ४.
 अत्या-क्रामत्- -मन् बौश्रौ १, १५ :
 १७; २३; ९, १० : १४.
 अ-त्याज्य, ज्या- -ज्या, -ज्याः शंघ
 ४२; -ज्यानाम् सुधप ८७ :
 १७.
 ? अत्याहंहाता^१ चात्र ३० : १६.
 अत्यादि- अति द्र.
 अत्या (ति-आ) / धा, अत्यादधाति
 आपश्रौ १, १२, ३^१; २, ९, १३;
 १३, ३; ११, ७, ९; १८, १७,
 १४; भाश्रौ १, ४, १०; १९, ७^०;
 २, १३, ३; ४.
 अत्या-धान- -नम् आपध २, २०,
 १४; हिध २, ५, १०१; पा ३,
 ३, ८०.
 अत्याधानो(न-उ) पात्रहरण^०-
 -णे आपश्रौ २, १३, ५.
 अत्या-धाय आपश्रौ १, १७, ८^०.
 अत्या-धि- -धिः निस् १०, १० :
 १८; २२.
 अत्या-धित्सत्- -त्सन् निस् ९, १२ :
 २३; १०, १ : ७^१.
 अत्या (ति-आ) / धाच् (गतौ), अत्या-
 धावति बौश्रौ १६, ३ : १८.
 अत्या (ति-आ) / नी, अत्यानयेयुः
 बौश्रौ २६, २४ : १२.
 अत्या(ति-आ)य- अती (ति/इ) द्र.
 अत्या(ति-आ) / यच्छ्, यम्(यमने)^०,

a) प्रास. । b) कस. । c) नाप. (संख्या-विशेष-). प्रास. । d) विप. । प्रास. । e) द्रस. ।
 f) विप. (अभि-). बत्त. उप. भाप. । g) नाप. (छन्दो-विशेष-). प्रास. । h) विप. । तस्येदमीयः अण प्र. ।
 i) अत्य^० इति पाठः ? यनि. शोधः । j) मलो. कस. । k) पाभे. वैप १ परि. अत्यस्तु ऋ ७, १, १४ टि. द्र. ।
 l) अभ्यस्तम् इति मूको. । m) पाठः ? अस्व(स्ति, अ)स्या(स्य, अ)वः इति त्रि-पदः शोधः (तु. सपा. ऋ
 १०, १७, १३ तै ३, १, १०, १ विशिष्टौ पाभे.) । n) पाठः ? द्विवि दिव्यान्त्यन्तरिक्षेऽन्तरिक्षाणि इह पृथिव्यां
 इति षट्-पदः मंत्र-शोधः (तु. सपा. तै ६, ५, २, १ मै ४, ६, ६ काठ २८, १ विशिष्टौ पाभे.) । o) सप्र.
 °दधाति <> °धाय इति पाभे. । p) अन्वाधि^० इति पाठः ? यनि. शोधः (तु. सप्र. पूर्व स्थलम्; वैतु. संस्कृतः
 टि. अन्वाधि^० इति शोधः) । q) उपसृष्टस्य धा. आनयने वृत्तिः ।

अत्यायच्छेत् बौध्रौ २२, १: २०.
 अत्या-यमन-ने बौध्रौ २२, १: १९.
 अत्या (ति-आ) / या, अत्यायात्
 शाश्रौ १५, ८, २०^१.
 अत्या (ति-आ) यु-पात्र^२- -त्रम् जैश्रौ
 ८: २६.
 अत्या (ति-आ) युस्^३- -यु: शाश्रौ १७,
 १२, १.
 अत्या (ति-आर्द्र) द्रा- -द्रा: अप २६,
 ४, ४.
 अत्या (ति-आ) / वप्, अत्यावपेत्
 आश्रौ ४, १५, ४.
 अत्याश- अत्य (ति/अ) श् द.
 ?अत्यादाक्यात्^४ माशि १६, १५.
 अत्या (ति-आ) / श्रु, अत्याश्रावयेत्
 बौध्रौ २०, २८: १; २.
 अत्या-श्रावण- -णे बौध्रौ २०,
 २८: १.
 अत्या-श्रावित- -तम् आपश्रौ ३,
 ११, २; बौध्रौ १, २१: ९; २७,
 १: ६; भाश्रौ ३, १०, २; वाश्रौ
 १, ३, ७, २०; वैश्रौ २०, २४:
 १०; ११; हिश्रौ २, ६, ३.
 अत्या (ति-आ) / स्तु, अत्यासरत् कौस्
 ६२, २०; २१^५.
 अत्या-सारि (त् >) णी^६- -णी
 आपमं २, १३, १; भाश्र १, २५: ८
 अत्या (ति-आ) / हन्, अत्याह्न्यात्
 नाशि १, ६, १५.
 अत्या (ति-आ) / ह् > अत्या-हृत्य
 आपश्रौ १०, १७, ८.

अत्या (ति-आ) / हे, अत्याह्वयति गो
 १, २४; अत्याह्वयेत् गो १, २३.
 अत्युक्त- अति/वच् द.
 अत्यु (ति-उक्त >) का^७- > अत्युक्त-
 मध्या^८- -ध्ये उनिस् २: २०.
 अत्यु (ति-उ) प्र- -प्र: बौध्रौ १३, १३:
 ८^९; बौध्र २, २, ७०; -प्रै: अप
 ७०^३, ११, २८.
 अत्यु (ति-उ) च- -चै: माशि ४, ४.
 अत्यु (ति-उ) त्तम- -मम् याशि १, ४४.
 अत्यु (ति-उ) द्/गृह्, अत्युद्गृह्णाति
 आपश्रौ ५, १४, ८; हिश्रौ ३, ४,
 १८.
 अत्युद्-गृह् माश्रौ १, ५, ४, १३.
 अत्यु (ति-उ) द्/यच्छ (यमने), अत्यु-
 यच्छति वाश्रौ १, ४, ३, १४.
 अत्यु (ति-उ) प/धा, अत्युपदधाति
 वाश्रौ २, १, ४, ३५; माश्रौ ६,
 १, ५, ३२.
 अत्यु (ति-उ) प-सं/ह् > अत्युपसं-
 हृत- -तम् तैप्रा २, १२.
 अत्युह्य अति/वह् द.
 अत्युमशा^{१०} पाग १, ४, ६१.
 अत्यु (ति-ऊ) र्ध्वा^{११} (ध्वं-अ) क्ष^{१२}- -क्ष:
 बौध्रौ १९, १०: १४.
 अत्र एतद्- द.
 अत्र- / अद् द.
 ?अत्रस्त: निसू ७, ७: ४१.
 अत्र-अ (स्तु >) स्तु^{१३}- -स्तु आश्रौ १,
 ९, १; शाश्रौ १, १४, ४.
 अत्रि^{१४}- पाउ ४, ६८; -त्रय: बौध्रौ प्र;

-त्रये आमिण्ड; -त्रि: अअ
 २०, १२^१; -त्रिणा आपश्रौ
 १५, १९, ५^३; बौध्रौ, ९, १८:
 २१; भाश्रौ ११, २०, १; गोश्र
 ४, ९, १८^३; -त्रिभ्य: ऋअ
 २, ५, १; -त्रिम या ६, ३६^४;
 -त्रिषु^५ वृदे ५, १३; ७, ९८;
 ऋप्रा २, ६६; -त्रीणाम्^६ आश्रौ;
 -त्रीन्^७ बौध्रौ प्र २७: १; -त्रे:
 आपश्रौ; -त्रौ वृदे २, १२९.
 आत्रेय^८- पाग ४, १, ११०;
 -०य आश्रौ; -य:, -यम् शाश्रौ
 १६, १८, १८; काश्रौ १०, २,
 २०^२^९; आपश्रौ २०, २२, ६;
 हिश्रौ १४, ५, ४; क्षुस् ३, ९: ५;
 निस् ८, १३: ३७; १९: ४०; ४२;
 ४५; ९, ५: २४; ऋअ २, ५,
 १; वृदे ५, ५१; या ८, २२;
 -यस्य आश्रौ; -या: बौध्रौ प्र
 २७: ६; -यानाम् वैध ४, ५,
 १; -याय जैश्रौ १६: ४०;
 -ये पाग ४, १, ११०^३; -येण
 कौशि ४८; -यौ साश्र १, ७३.
 आत्रेयी^{१०}- -यी ऋअ २,
 ५, २८.
 आत्रेयायण- पा ४, १,
 ११०; -णा: बौध्रौ प्र १७: १५.
 आत्रेय-वाद्यश्व-वाधूल-वसि-
 ष्ट-कण्व-शुनक-संस्कृति-यस्क-रा-
 जन्य-वैश्य^{११}- -श्या: बौध्रौ प्र
 ५४: १.

a) वैप २, ३३६. द. । b) विप. । प्रास. । c) पाठ: ? अत्यशक्त्या च इति शोध: (तु. संस्कृते: टि.) ।
 d) पामे. पृ ९२ g टि. द. । e) नाप. (छन्दोविशेष-). प्रास. । f) पूष. छान्दस: पुंवद्भाव: । g) वैप ३, १७३
 s टि. द. । h) अपभाषणे ङान्तम् अव्य. । i) पाठ: ? अत्र स्तोमे इति द्वि-पद: शोध: । j) वैप १, परि.
 च द. । k) बहु. <आत्रेय- (पा २, ४, ६५) । l) अन्त्यात्रिम् इति पाठ: ? अन्त्याम्, अत्रि: इति द्वि-पद: शोध: ।
 m) पामे. वैप १ परि. अत्रिवत् शौ २, ३२, ३ टि. द. । n) व्यप. च नाप. (सूक्त- साम-विशेष- [ऋअ. निस्. प्रसू.] च ।
 o) अत्रे इति पाठ: ? अनि. शोध: । p) तु. भारडा. पासि. पागम.; पाका. तु ष्य- इति । q) व्यप.
 (अत्रिकन्या- [विश्ववारा-]) । r) द्रस. ।

आत्रेय-सगोत्र^a- -अत्र चट्य
 ४ : २१.
 अत्रि-कश्यप^b- -पानाम्^c काय ४०,
 ३; कायु ४४ : २०.
 अत्रि-गोत्र, आ^d- -त्राम् विध ५०, ९;
 -त्राय जैश्रीका १६६; -त्रायाः
 विध ३६, १.
 अत्रि-चतुर्वारि^e- > ^oर्वारि-जामदग्नि-
 वसिष्ठसंस्पर्ष-विश्वामित्र^b- -त्राः
 काश्री २३, २, ११.
 अत्रि-दुहितृ- -ता शुभ्र ३, १७०.
 अत्रि-पुत्र- -त्रः वृदे ५, ५७; -त्रस्य
 वृदे ५, ५२.
 अत्रि-भार्गव-काश्यप^b- -पानाम्
 वायु ४, १८.
 अत्रि-भृगु-कुत्स-वसिष्ठ-गोतमा (म-
 ऋ) ऋिस्^b- -रोम्यः पा २, ४,
 ६५.
 अत्रि-मण्डल- -ले ऋत्र २, १०, ५६;
 वृदे ७, ८६.
 अत्रि-मुनि^f- -निना चात्र ४२ : २०.
 अत्रि-वत् आपश्री २४, ८, ११-१३.
 अत्रि-वध्रयश्व^b- -श्वानाम् शाश्री
 १, ७, ३.
 अत्रि-वसिष्ठ-कण्व-कश्यप- शुनक-सं
 कृति-राजन्य-वध्रयश्व^b- -श्वानाम्
 वैश्री १८, ५ : ८.
 अत्रि-वसिष्ठ-शुनक-कण्व-संकृति-व-
 ध्रयश्व^b- -श्वानाम् लाश्री ६, ४,

१३.
 अत्रि-संस्तव- -वः वृदे ६, ७२.
 अत्रि-सुता- -ता वृदे ६, ९९.
 अत्रेश्-चतुर्विंश- -शः हिश्री १७,
 ७, ६.
 अत्रेश्-चतुर्वारि^e- -रः शाश्री १६,
 २३, ८; आपश्री २२, १८,
 १२४^b; -रम् आश्री १०, २,
 १६.
 षअत्रेश्-चतुरात्र¹- -त्रः हिश्री १७,
 ७, ६^b.
 अन्या (त्रि-आ)दि-प्रतिषेध¹- -घः
 पावा ४, १, ११४.
 अ-त्रिकिणिन्^k- -गिनः बौश्री २,
 ३ : २.
 अत्रिन्- ✓अद् द्र.
 अ-त्रि-रात्र-याजिन्¹- -जी लाश्री
 ९, ८, २.
 अ-त्रि-वर्ष^m- -र्वे बौध १, ५, ९३.
 अ-त्रैरात्रिकⁿ- -कम् निस् ६, ८ : २३.
 अ-ऽया(त्रि-आ)र्षेय^o- -यस्य मीस् ६,
 १, ४३.
 अ-त्वर^d- -रः कप्र २, ८, ६.
 अ-त्वरमाण- पा ६, २, १६०; -णः
 आपश्री; -णाः आपश्री १६, ३,
 १२; हिश्री ११, १, ३९; -णे
 या १०, ३२.
 अ-त्वरमाण-पथिन्^o- -न्याः या
 ११, २३.

अ-त्वर^d- -राम् वाध ११, ३५.
 अ-त्सरुक^d- -काः काश्री २४, ४,
 ४०; -कान् आपश्री १२, २, ८;
 वैश्री १५, २ : १५; हिश्री ८,
 १, ३२; -कैः आपश्री २३, १०,
 ११; बौश्री १७, २१ : ३; २५,
 १३ : २०; हिश्री १८, ४, ९;
 लाश्री १०, १२, १३; निस् १०,
 ८ : १८.
 अत्स्यत्- ✓अद् द्र.
 ✓अँथ्^g*अथन- > अथन-वत्^h-
 -वन्तः या ११, १८.
 अथ, > था^f आपश्री; ९, ८, ६^g; बौश्री
 १८, ८ : १०^h; आपमं १, १, १०^h;
 १५, ३^h; हिग् १, ४, ८^h : १७, ४^h.
 ऋओथा^y आश्री; ओ३था वैताश्री
 ३२, १८; ओ३ओ ओ३था वैताश्री
 ३२, ३२; ओ३ओ३ओथा शाश्री
 १२, १३, ४; २४, ६; २६, ११;
 ओथो शाश्री १०, ५, १७; ओथो३
 शाश्री १२, ११, १०; ओथो३ओ३
 शाश्री १०, ५, १६.
 अथ-कार- -रः निस् ४, १ : ५; ९;
 -रम् निस् ३, १३ : २७; शुप्र
 १, १९.
 अथकार-गि (<नि)घन^d- -नम्
 निस् ८, ७ : ३८.
 अथकार-व (त >) ती^z- -स्यः
 लुस् ३, ७ : ७.

a) षस. । b) द्वस. । c) बहु. < आत्रेय-काश्यप- । d) विप. । बस. । e) ना. ।
 षस. । उप. तद्वितार्थे द्विस. (तु. तांवा २१, ९, २) । f) कस. । g) =अत्रि-चतुर्वारि- । पू. षष्ठ्या अलुगिति
 विशेषः । h) सप्र. ँतुर्वारिः <> तुरात्रः इति पाभे. । i) नाप. (अहीन-विशेष-). उप. तद्वितार्थे द्विस. । j) षस.
 पू. बस. । k) विप. (ऋत्विज्-). तस. उप. <त्रि-किण- (त्रि-चिह्-). । l) विप. । तस. उप. द्विस. > उस. ।
 m) विप. (प्रेत-). तस. > द्विस. । n) तस. उप. त्रिरात्र + स्वार्थे ङक् प्र. उंसं. (पा ५, ४, ३४) । o) तस.
 उप. बस. । p) तस. उप. भाप. । q) वैप १, ९४ C द्र. r) वैप १ द्र. । s) पाभे. वैप १ युत्र मै २,
 १३, २२ टि. द्र. । t) पाठः? अथ इति शोधः (तु. सपा. बौश्री १५, ३ : ४) । u) पाभे. वैप १, १०५५ j टि. द्र. ।
 v) पाभे. वैप १ परि. अथ ऋ १०, १४५, ३ टि. द्र. । w) पाभे. वैप १ युथा शौ १९, २४, २; ३ टि. द्र. ।
 x) पाभे. वैप १ पुनः शौ ७, ६९, १ टि. द्र. । y) प्रतिपरः (तु. भा [तौ ३, २, ९, ५]) । z) विप. (शकरी-).
 वैप-प्र-१३

अथकार-स्थान^a - ने लाश्री १०, २, ८.

अथ-मा-स-न-शब्द^b - ष्देभ्यः
याशि २, ५४.

अथ-वा शाश्री १४, १०, १९.

अथो(थ-उ)^c आपमं १, ९, २^d; माय
१, ३, १^e; अथो३ शाश्री १२,
११, १०.

*अथर्^f - अथ(रि >)री^g - र्यः
अप ४८, ८२; निघ २, ५.

√ अथर्थ^h, अथर्थति निघ २, १४.

अथर्थ- -०र्थं शाश्री २, १४,
३^h; १५, ४; शुभ १, २०३^h;

-र्यः काशु ७, ३७.

अथर्थुⁱ - र्थुम्ⁱ आपश्री १४,
१६, १; माश्री ६, २, २, २१;

हिश्री १५, ५, १; अप्राय ६, १;
निघ ४, २; या ५, १०^h.

अथर्-व^j - ०र्वं आश्री २, ५, २^k;
आपश्री ५, १८, २^k; वौश्री २,
१८ : १६; ३, १४ : ११; भाश्री
५, ११, ७; वैश्री १, १४ : १५;
हिश्री ६, ५, १६.

अथर्-वन्^l - पाउभो २, १, २७८;
पाग ४, २, ३८^l; ६३; -र्वणः

वैताश्री; -र्वणा अप ८, २, १;
१९^l, ५, ८; -र्वणाम् कौस्;

-र्वणे वैताश्री ६, १; अप ४८,
१; -र्वभिः आपश्री; -र्वभ्यः

वौध ३, ९, ३^l; -र्वा वैताश्री;

-र्वाणः आश्री; -र्वाणम् आमिग.

आथर्वण^k - पा ४, २, ३८;

पात्रा ४, ३, १३१; पाग ४, २,
६३; -०ण आश्री ८, १, १८^l;

-णः अथ २, ५^l; -णम् लाश्री;
-णस्य चाथ १६ : १८^l;

-णात् अप २, ४, २; -णानाम्
अप ४६, १०, १; अथ १६, ८;

१९, २३; -णे अप ६९, ९, २;
-णेन विध ५, १९१; -णभ्यः

अप ४३, १, १६; -णैः अप ५४,
२, ३.

आथर्वणी - णीभिः

वैताश्री ५, १०.

आथर्वण-गण-मन्त्र^m -

-न्त्राणाम् अथभू १.

आथर्वणिक - पा ४, २, ६३;
६, ४, १७४; -कम् शुभ ४,
१६४; -कस्य पात्रा ४, ३, १३१;

-काः निस् २, १२ : ३०.

अथर्व-कⁿ - कः अप ६९, ८, ७.

अथर्वण^o - णस्य अप ३५, १,
१; -णानाम् पाय २, १०, २१;

-णानि वौग ३, ५, ७.

अथर्वण-वेद^p - दाय वैग २,
१२ : ७.

अथर्व-तसः(ः) अप्राय ३, ४.

अथर्व-भिन्न - अम् अप २, २, १.

अथर्व-मन्त्र (न्त्र-ऋ)षि-च्छन्दो-
देवता(ता-अ)नुक्रान्ति^q -

-न्तिः अथ ८, १.

अथर्व-मन्त्र-संप्राप्ति^r - ष्या
अप २, ५, ५.

अथर्व-विद्^s - वित् अप २, २,
४; ३, ४; ४, २.

अथर्व-विवर्जित - तः अप २,
१, ५.

अथर्व-विहित, ता - तः अप ५,
५, ७; -तानि अप ३, १, १०;

-ताम् अप ६६, १, ४.

अथर्व-वेद^t - दः शाश्री १६, २,
९; वैग १, २ : १६^l; अप

४१, ५, ३; चव्यू १ : ३; ४ :
१९; -दम् आमिग १, २, १ :

६; २ : ४; २, ६, १ : १४; ३ :
४३; हिग २, १८, ३; २०, ९;

शंध ११६ : ३८; अथर्व २, ५,
२७; ४, ३, ४; -दस्य वौग २,

९, ५; भाग ३, १५ : ५; चव्यू
४ : १; ११; २४; -दाय आमिग

१, २, २ : २६; अथर्व ३, १, ८;
२, ९; २२; ३४; ४७; ३, ११;

९, ५^h; भाग ३, १४ : १३; हिग
२, १९, ६; अप्राय १, १; अप

३४, १, १^h; -दे पाय २, १०, ७.

अथर्व-वेदो(द-उ)ऋव^u -

-वानाम् अप ३६, २, १.

अथर्व-शिरस्^v - रः आपश्री १७,
८, २; वौश्री २२, ७ : ८; ९;
वैश्री १९, ५ : ४४; हिश्री १२,

a) षस. । b) दस. > कस. । c) वैप १, परि. च द्र. । d) पाभे. वैप १ परि. अथो ऋ १०, ८५, २

टि. द्र. । e) पाभे. वैप १ पुनः शौ ७, ६९, १ टि. द्र. । f) वैप १ द्र. । g) पाभे. वैप १ परि. द्र. । h) तु.

वैप ३, २८ f, g, h । i) अर्वन् इति काचित्कः पाका. पाभे. (तु. भारडा.) । j) पाभे. वैप १ परि. अश्विरोभ्यः

तै ७, ५, ११, २ टि. द्र. । k) बप्रा. । विप., नाप. (अथर्व-वेद-, साम-विशेष- [लाश्री. लुस्. निस्.], विधि-

विशेष-), व्यप. (अथर्व-ऋषि-) । तस्यापत्प्रीयतेनदृष्टीयावर्थेषु अण् प्र. । l) अथर् इति पाठः ? यनि. शोधः ।

m) षस. > षस. । n) व्यप. (अथर्वन्-) । स्वार्थे कन् प्र. । o) =अथर्वन्- । स्वार्थे अच् प्र. उसं. (पा ५, ४, ३८) ।

p) कस. । q) षस. > दस. > षस. । r) नाप. । उस. । s) विप. । बस. । t) नाप. (इष्टका-विशेष- [आपश्री.

प्रसृ.], उपनिषद्-विशेष- [अप.प्रसृ.], अथर्व-वेदिन्-) । बस. ।

१,१९; अप ४२, २, १०; ६७,
८, ५; वाध २२, ९; २८, १४;
शंघ १०५; बौध ३, १०,
११; विघ ५६, २२; गौध १९,
१३; -रसः बौधौ २२, ७ : ७;
अप ४४, २, ४; शंघ २००; -राः
अप ६९, २, ३.
अथर्व-हृदय^१ - यम् अप ६९,
८, ७; ९, १-३.
अथर्वा (र्व-अ) क्लिरस^२ - रसः
आगृ; -रसम् बौध २, ५, २७; ^३
-राः अत्रभू ३; -रोमिः आपमं
२, २१, ५; -^४रोभ्यः बौगृ ३, १, ८.
अथर्वाक्लिरस^५ - संान् वृदे
५, १६; -से वृदे २, १४३.
अथर्वाक्लिरो-विद्^६ - विदम्
वैताश्रौ ११, २.
अथर्वा (र्व-आ) चार्थ^७ - र्यः अत्र
८, १०.
अथर्वा (र्व-अ) भिमन्त्रि (त >)
ता^८ - ताम् अप ९, २, ५.
✓अथर्य, अथर्यु- प्रभृ. *अधर्- द्र.
?अथर्व्यु(ध>)ष्टा^९ - ष्टा आपश्रौ ६,
२०, २^१.
?अधुराण- णः अप ४८, ६७.
✓अद्, पाधा. अदा. पर. भक्षणे^{१०};
अत्ति ^{११}शांश्रौ; अत्तः या ६,
४^{१२}; अदन्ति या ५, १^१; ^{१३}अत्ति
कौत् ४६, ५५; अप १, ३६, ७;
अधि बौध; अदत्, अदताम्,
अदन् माश्रौ ५, २, ९, ६^{१४}; ^{१५}अत्तु
आश्रौ; ^{१६}अदन्तु आपश्रौ; ^{१७}अद्धि

आश्रौ; अत्तम् अत्र ६, १४०^{१८};
^{१९}अत्त, > ता बौश्रौ; अद्य सु
१३, ३; आदत् आश्रौ ३, ४, १५;
८, ८; शाश्रौ ६, १, ५; आदन् शाश्रौ
६, १, ५; अद्यात् हिध १, ५, ४६^१.
^२अद्यते आपश्रौ १०, १३, ११;
बौश्रौ २८, ९ : २१; वैश्रौ २१,
२ : ७; हिगृ १, १७, ४.
अदयीत आपश्रौ ५, २५, १८;
माश्रौ ५, १६, १८; हिश्रौ ६, ५,
२३.
आदयतः हिश्रौ १७, २, २३;
आदयेयुः आश्रौ १२, ८, २७.
^३अत्तवे बौश्रौ २, ९ : १२; आपमं
१, १७, ९; २, ११, २०; पागृ १,
१६, २; गौपि २, ३, ११.
^४अत्तवै भागृ २, ११ : ९.
अत्ति->अत्ति-कर्मन्^५ - मर्मा या
५, १२; ९, २३; -मर्माः निघ २,
८; या ३, ९.
^६अत्तुम् आमिगृ ३, १, ३ : ३६;
भागृ २, १४ : १५; हिगृ २,
१३, २.
अत्तु- -त्ता वाधूश्रौ ४, १० : ८.
अत्त्वा बौश्रौ १७, ४४ : १५^७.
^८अत्र^१ - त्राणि वृदे २, ११६.
^९अत्रिन्^१ - पाठ ४, ६८; -त्रिणः
वाध १७, ३; -त्रिणम् आश्रौ
२, १६, ४; ८, १२, ७; माश्रौ ५,
२, ८, ९; हिश्रौ १५, ८, ४; शुप्रा
६, ७.
अत्स्यत् - -त्स्यतः काश्रौ ४, १५,

१५; १८; वाधूश्रौ ३, १९ : ३;
४, ६५ : २; १०९ : ३.
^१अदत् - दते या ६, ११; -दत्सु
विघ ७३, १४; -दन्तम् या
१४, २^१.
अदन् - नम् या ११, ३२; -नाय
या २, ६.
^२अदान^१ - नम् या ३, २०^२.
^३अद्यन्^१ - अ या ४, १६^३.
अद्य-सद्^४ - सत् निघ ४, १;
या ^५४, १६^४.
अद्य-सादि(न् >)नी - नी या
४, १६.
अद्य-सानि(न् >)नी - नी या
४, १६.
अद्यनि - पाठ २, १०५.
अद्यर - पा ३, २, १६०.
अद्यमान - नाः वाधूश्रौ ४, ५२ :
७; ८.
अद्य^१ - पाठ ३, १०; -^२अद्यम्^३
आपश्रौ ७, २८, २; १५,
१४, १३; माश्रौ १, ८, ६,
२२; -^४अद्यम् S-अद्य शांश्रौ;
^५अद्यस्य आपश्रौ; -अद्यस्य
S-अद्यस्य वाधूश्रौ ४, ९० : २१;
-अद्या आपश्रौ ३, १५, ५^६;
-^७अद्यात् काश्रौ; -^८अद्यानाम्
बौश्रौ; -अद्यानि काश्रौ; -अद्याय
आपश्रौ; -^९अद्ये शांश्रौ ४, १८,
११^९; -अद्येन शांश्रौ; -^{१०}अद्येषु
वागृ १५, ८; तैप्रा ११, १७;
-अद्ये अप ६८, ५, २९; या ११,

a) नाप. (अथर्व-परिशिष्ट-विशेष-). षस.। b) नाप. (अथर्व-वेद-) वा व्यप. (तदाख्य-ऋषि-) वा। वैप
१ द्र.। c) =अथर्ववेद-। अच् प्र. उस्सं. (पा ५, ४, ७७)। d) उस्स.। e) कस्.। f) विप.। तृस.। g) पाठः ?
अद्यद्विष्टा इति शोधः (तु. शौ २, ७, १)। h) या ३, ९; ४, ४; ९, १७ पाठ ७, २, ६६; ३, १०० पावा १, ४, ५२; ६, १, १८२
इत्यप्रास्यं परामृष्टः द्र.। i) मदन्ति इति [तु. ज.] पाठः ? यनि. शोधः (तु. R.N.)। j) सपा. आपध १, १७, १४
अधीयात् इति पामे.। k) विप.। बस.। l) वैप १, परि. च द्र.। m) पामे. वैप १ परि. अद्यम् मै ३, ९, ४
टि. द्र.। n) पामे. वैप १ पृष्ठे मै ३, ११, ८ टि. द्र.।

२६.

अद्- पा ४, ४, ८५.

अद्-काम^२- -मः बौध्रौ १३,
११:७; १७, २९:७; माश्रौ ५, २,
१०, १८; वाश्रौ ३, ३, ४, ३४^१;
हिश्रौ १२, ८, ९; जैगृ १, २३:
७^१; आपशु १३, ४^१; हिशु ४,
३६^१; वृदे ३, ३२; -मस्य
आपश्रौ ५, १४, ३; १६, ९, ८;
बौश्रौ १०, १३: १५; १७, २९:
९; १९, १०: ५९^१; हिश्रौ ११,
३, ९; १३; २१, २, ५०; २४, ६,
१३; वैताश्रौ ४३, २९; मागृ
२, ११, २; अशां १७, ३.

√अद्काम्य > अद्काम्या^२-
-म्या कौसू ७४, १२^१.

अद्काम्या (म्या-अ)-

भाव^०- -वः आश्रौ २, ७, १६.
अद्-कारि-त्व^१- -त्वात् मीसू
१०, ३, ३७.
अद्-क्षय^०- -यः अप ७१^२, ८,
५; -ये अशां १७, ३.
अद्-गीत^०- -तौ बौध २, ३,
१८.
अद्-तस्र (:) आमिगृ २, ७, ९:
४७.
अद्-तीक्ष्ण-शुचि^१- -चिषु पा
६, २, १६१.
अद्-नृसि^१- -सिमू जैगृ २, २:
२९.
अद्-द- -दः शाश्रौ ६, १२,

२७^१; बौध ४, ५, ३२; विध
९२, २१; -दाय अप ४५, २,
४^१.

अद्-दधि-वृत-मधु-मांस^१- -सैः
विध २१, १०.

अद्-दान^०- -नमू वैगृ ३, २३:
१५; गौध ५, ३५.

अद्-दाय^१- पावा ३, २, १.

अद्-देवता > अद्देव(त्य >)
त्या^१- -त्याः शुभ्र २, ३२९.

अद्-धन-दान^०- -ने हिगृ २,
१५, १२.

अद्-नामन्^०- -म या ३, ८; ५,
१; ६, १६; ९, २४; १०, ३;
-मानि निघ २, ७; या ३, ९.

अद्-पति^१- -तयः शाश्रौ १०,
१७, ८; १९, २; -^१तये आश्रौ;
-^१तिः शाश्रौ; -^१ते^१ काश्रौ
अद्पत्नी^१- -स्नी आश्रौ
८, १३, १३; -स्नीमू शाश्रौ १०,
१९, २.

अद्पती(य >)या^१- -यया
पागृ ३, १, ५; -यामू बौश्रौ १०,
१६: १२; १५; २२, ३: १४;
-यायै बौश्रौ २२, ३: १३.

^१अद्पत्य- -त्याय^० आश्रौ
३, १२, २३; आपश्रौ ५, ११, ६;
९, ९, १; कौसू ७०, ६.

अद्-परिक्षेप^०- -वान् आपश्रौ
२०, १२, १०; १६, १९; हिश्रौ
१४, ३, ६; ४७.

अद्-पर्याय^०- -यमू पागृ १, १९,
१३^१.

^१अद्-पा- -०पा:० आपश्रौ ५,
१३, ८; वैश्रौ १, १२: १०; हिश्रौ
३, ४, २२.

अद्-पान^१- -नमू^१ शाश्रौ १५, ५,
१; शंध २१८; विध ८६, २०;
हिध २, ५, १८८; या १४, ५^१;
-ने बौगृ २, ६, ९^१; -नेन^१ अप
४, ३, २.

अद्पान-दान^०- -नेन विध
९०, १२.

अद्पान-विहीन^१- -नान् अप
१९^१, ५, ३.

अद्-पान-धूप-दीप^१- -वैः अप
४, ५, ५.

^१अद्-पाश^१- -शेन गोगृ २, ३,
२१^१; द्रागृ १, ४, १०.

अद्-पू (व >)वा^१- -वाभिः
हिश्रौ १३, २, २१.

अद्-प्रतिबंध^०- -धात् मीसू ३,
४, १९.

अद्-प्रदातृ- -त्ता वाध २९, ९;
शंध २४४.

अद्-प्रदान^०- -नमू वैगृ ६, १७:
७; -ने बौपि २, १२, ४; -नेन
विध ९१, १६.

अद्-प्रयोजन^१- -नः हिध २,
२, ५^१.

अद्-प्रवा(द >)दा^१- -दाः निस्
२, ११: १४.

a वैप १, परि. च द्र. । b) वैप १ द्र. c) षुद्ध. । d) आप. । पू. उ.स. । e) विप. (स्तोक-) ।
तुस. । f) द्रस. । g) तुस. । h) 'दासि इति षाठः ? 'दोसि ['दः असि] इति शोधः (तु. ?BC.) ।
i) उ.स. उ.प. < √दा [दाने] । j) विप. (ऋच्-) । k) द्रस. > षस. । l) षभे. वैप १ परि. अद्पते मा ११,
८३ टि. द्र. । m) नाप. (प्रजापतितनू-) । n) विप. (ऋच्-, समिध्-) । o) पाभे. वैप १ परि. अद्पत्याय टि. द्र. ।
p) -यमू इति वा. क्रिवि. । 'य इति पाठः ? यनि. शोधः (वैतु. ?BW. णमुळन्तमिति संकेतुकः) । q) सपा. काठ ७,
१३ नय इति पाभे. । r) समाहारे द्रस. । s) अद् पानमू इति BN. । t) विप. । तुस. । u) कस. । v) पाभे.
वैप १ परि. अद्पत्येन टि. द्र. । w) विप. । बस. । x) अन्य^० इति पाठः ? यनि. शोधः (तु. आपध २, ६, ५) ।

अङ्ग-प्राशन^०- नम् आगृ १, १६, १; कौट १, १९, १; शांठ १, २७, १; पाण्ड १, १९, १; आमिण्ड २, २, ४ : १; काण्ड ३९, १; कागृउ ४४ : १८; बौण्ड २, ३, १; माण्ड १, २०, १; वैण्ड ३, २२ : १; ६, ५ : ४; हिण्ड २, ५, १; शंघ २४; विध २७, ११; -नात् आमिण्ड २, २, १ : ११; आपध २, १५, १९; हिध २, ३, ५३; -ने वैण्ड ६, ५ : २.
 *अङ्ग-भाग^०- गम् कौसू ६२, २१.
 अङ्ग-भाज्^०- भाक् आज्यो ६, ३.
 अङ्ग-भोजन^०- ने आश्रौ ३, १३, ८; -नेषु शंघ १५१.
 *अङ्ग-मत्- मत्^० आपश्रौ १६, ३४, ४; वैश्रौ १८, २१ : ३६; हिश्रौ ११, ८, १५.
 *अङ्ग-मय- बौध ३, ८, १६; -येन काण्ड २२, १.
 ?अङ्ग-रस-रनेह-मधु-पुष्प-फलो (ल-उ)द्रम^०- माः अष ६४, ९, २.
 अङ्ग-लेप^०- पान् आपध १, १५, २३; हिध १, ४, ८२.
 अङ्ग-वत्- वत् भाशि ३०; -वताम् आपश्रौ २२, २८, २४; बौश्रौ १८, १८ : १६; हिश्रौ २३, ४, ६५; -वते बौश्रौ १३, ६ : १; माश्रौ ५, १, ७, ३५; हिश्रौ २२, २, १५; या १०, ६; -०वन् या १२, १७; -वन्तम्

हिण्ड २, १४, ७; या १०, २८; -वान् बौश्रौ ३, २६ : ३१; १३, ६ : १; माश्रौ १, ४, १, २७; वाश्रौ १, १, ३, ११; अप १२, १, ९; या १०, ४२.
 अङ्गवती- -०ति या १२, ६; -तो आण्ड १, ५, ५; या ११, २६; ३१; -तीम् या ६, ३६.
 अङ्ग-वधक-गात्र-विचक्षण- (ण-अ)जिरा(र-आ)घ(दि-अ)- र्थ- -र्थम् पावा २, ४, ५४.
 अङ्ग-विकार- -रेभ्यः पावा ५, १, २.
 अङ्ग-विकिर^०- रम् विध ७३, २५.
 अङ्ग-विशेष^०- धान् शंघ १३३; गौध ५, ३३.
 अङ्ग-व्यञ्जन^०- नयोः याशि २, ११०.
 ?अङ्गशन^०- ने पाण्ड १, ३, १८.
 अङ्ग-शुद्धि^०- द्विः वैध ३, ३, ९.
 अङ्गशुद्ध्यु(द्वि-उ)पेत^०- -तान् वैश्रौ १२, १ : ३.
 अङ्ग-शेष^०- षम् आमिण्ड २, ५, ७ : १८; ११ : १६; ३, ११, २ : २१; बौण्ड १, ११, १२; वैण्ड ४, ४ : १९; -षस्य आमिण्ड २, ५, ११ : १८; -वान् बौण्ड २, १०, २-८; ११, ४२; ४४; बौण्ड २, ९, २१; ११, ८; -वेण विध ६७, ४; -वैः आमिण्ड ३, ३, २ : २६; ११, २ : १७; बौण्ड २, ११, ४५; बौण्ड २, ९, २१; ११, ८; गौण्ड

२, ४, २१.
 अङ्ग-शौच^०- चम् विध २२, ८९.
 अङ्ग-संयोग^०- गात् मीसू १०, १, ३६.
 अङ्ग-संरोध^०- धात् निसू १०, ९ : १८.
 अङ्ग-संसवन^०- नाय या १२, ४५.
 अङ्ग-संसिद्धि^०- द्विम् गोण्ड १, ४, २.
 अङ्ग-संस्कर्तृ^०- तर्तिः आपध २, ३, १; हिध २, १, ३२; -तर्तम् आपध २, ६, १६; हिध २, २, १७.
 अङ्ग-संस्कार^०- रः वैध ३, १३, ९.
 अङ्ग-संकल्पन^०- नम् वैण्ड २, १६ : १०.
 अङ्ग-सानि(न् >)नी^१- नी या ४, १६.
 अङ्ग-सूक्त^०- क्तेन आमिण्ड २, ६, ७ : २०; बौण्ड २, ३, ३; वैण्ड २, १८ : ७; ४, ८ : ११.
 अङ्ग-स्तुति^०- तिः ऋअ २, १, १८७; -तिम् शुअ ४, २.
 अङ्ग-होम^०- मः आपश्रौ १९, १३, ५; बौश्रौ १९, ५ : ५; हिश्रौ २३, २, ४०; -मम् हिश्रौ १३, २, २१०; -मान् आपश्रौ १८, ६, ५०; २०, १०, ५; वाश्रौ ३, १, २, २०; वैश्रौ १७, १६ : २; हिश्रौ १४, ३, २; -मेषु बौश्रौ

a) भाप. नाप. (संस्कार-विशेष-) च । उप. <मा(प्र✓अ)श् [भोजने] । b) षस. । c) विप. । उस. उप. <✓अङ् । d) पाभे. शोषश्च वैप १ परि. अङ्ग-वत्-> -वत् टि. द्र. । e) द्रस.> षस. ? । f) द्रस. > षस. । g) द्रस. । h) *अङ्ग-अङ्ग इति षस. पूर्वहपम् (तु. पावा ६, १, ९४ [वैतु. BC. °जा इति]) । i) विप. । तुस. । j) नाप. (पाषक-) । उस. । k) *अङ् सं इति पाठः? यनि. शोषः । l) विप. । उस. उप. <✓अङ् । m) नाप. (सूक्त-विशेष-) । षस. । n) षस. । o) सपा. *अम् <> *मान् इति पाभे. ।

२९, २ : १४, १५.

अज्ञा(ज्ञ-अक) > क्त^१ - क्तम्
वाश्रौ २, १, ३, २२.

अज्ञा(ज्ञ-अ)त्र^२ - त्रयोः शुभ्रा ४,
६७.

अज्ञा(ज्ञ-अ)द्, दा^३ - दः आपश्रौ
४, ९, १३^४; माश्रौ १, ४,
२, ३^५; -दम् आश्रौ; -दाः
शाश्रौ; आपश्रौ ६, १४, ६; ८, ८, २;
या ३, ८; -दान् कौस् ९२, २८;
गो २, ३; -दाय कौस् ७०, ६^६;
-दे वाध; -देन अअ १५, १४^७.

अज्ञादी^८ - दी वौश्रौ
१८, ३४ : ७; ९; ४२ : ९; ११-
१३; -दीम् शाश्रौ १०, १९, २;
-द्यः वौश्रौ १८, ३४ : ४; ६.

अज्ञाद-तम - मः वाधुश्रौ ४,
१०३^२ : ५.

अज्ञा(ज्ञ-आ)दि - दि वैगृ ७,
७ : ५; -दिना वैगृ ४, ७ : ७.

अज्ञादि-भैक्ष-भोजिन्^९ - जी
वैध १, ३, ६.

अज्ञाद्य(दि-अ) पूपो (प-उ)-
पदंश^{१०} - शैः वैगृ ४, ४ : १५.

अज्ञा(ज्ञ-अ)द्य^{११} - द्यम् शाश्रौ;
-द्यस्य, -द्यात् शाश्रौ; -द्याय
आश्रौ; -द्ये आपश्रौ; -द्येन
वौश्रौ; -द्यैः वैध १, ४, १; ४.

अज्ञाद्य-काम^{१२} - मः आश्रौ;
-मम् आपश्रौ; -मस्य शाश्रौ;
-माः आश्रौ; -मानाम् काश्रौ;
-मेन आपश्रौ.

अज्ञाद्यकाम-यज्ञ^१ - यज्ञः

निसू ७, ७ : १७.

अज्ञाद्य-ज^१ - जानाम् विध
५०, ४९^१.

अज्ञाद्य-दान^१ - नम् वैगृ ५,
१३ : २६.

अज्ञाद्य-भाग^१ - गम् शाश्रौ
१३, १२, १०.

अन्नाद्य-संस्ताव^१ - वम्
निसू ६, ७ : ४०; ४२; ७, ७ :
१९; २२; -वानि निसू ६, ७ :
३६.

अन्ना(ज्ञ-अ)पहारक - कः विध
४५, ११.

अन्ना(ज्ञ-अ)पहारिन्^{१३} - री शंघ
३७६; ३७७ : १८.

अन्ना(ज्ञ-अ)पूपा(प-आ)द्य^{१४} -
-द्यैः वैगृ ५, ६ : २३.

अन्ना(ज्ञ-अ)भाव^१ - वे पागृ २,
९, १६; वैगृ ६, १८ : ५.

अन्ना(ज्ञ-अ)भिमर्शन^१ - नात्
वौपि २, ११, ६.

अन्ना(ज्ञ-अ)र्थ - > र्थिन् -
-र्थिनः वैगृ ३, ७ : १५; -र्थिनम्
आपध २, ४, १३; हिध २, १,
६६.

अ(ज्ञ >) न्ना-वृध्^{१५} - वृधम्
ऋप्रा ९, २३.

अन्ना(न्न-आ)हार^{१६} - राः कौस्
९२, २७.

अन्ना(न्न-आ)हुति^१ - तीः भागृ
३, ३ : १.

√ अन्नीय, अन्नीयात् आपश्रौ

१०, १६, १३; माश्रौ १०, १०,
९; हिश्रौ १०, ३, ५१.

अन्ने(न्न-इ)ष्टि-दक्षिणा^{१७} - गा
माश्रौ ५, १, ६, २२.

अन्नो(न्न-उ)क्त - क्तम् निसू
६, ७ : ३६; -क्ते निसू ६, ७ :
४०; ४२.

अन्नो(न्न-उ)दक^{१८} - के कप्र २,
७, ४.

आदथित्वा आश्रौ २, ९, ४; शाश्रौ
३, १२, १६; वौश्रौ २८, ५ : २;
माश्रौ ६, १८, १२; हिश्रौ ३, ८,
८६.

आदिन् - दिनः^{१९} आपध २, २८, ५.

आदिनी - नी^{२०} पा, पावा ८,
४, ४८.

† १ आद्य - द्यम् अप्रा ३, ४, १.

अ-दकार^{२१} - रे ऋप्रा ९, ४७.

१अ-दक्षिण^{२२} - णे वैगृ ५, ८ : १.

२अ-दक्षि(णा >) ण^{२३} - णः आपश्रौ
१४, २६, ५; वैश्रौ २१, १३ : २;
हिश्रौ १५, ६, ३६; -गम् काश्रौ
२५, ११, ८; कौस् ६, २२^{२४};
-णान् काश्रौ १६, १, ५; -णानि
आश्रौ १२, १५, ७; काश्रौ १२,
१, ८; वाश्रौ ३, २, १, ३४; -णेन
आपश्रौ ९, १५, २०; माश्रौ ९,
१८, ९; माश्रौ ३, १, २३; वैश्रौ
२०, ३२ : ९; हिश्रौ १०, ७,
१३; १५, ४, ४०.

अदक्षिण-त्व - त्वात् काश्रौ २५,

a) त्रिप. । तृस. । b) द्वस. उप. अत्र (<एतद्-). । c) वैप १, परि. च द्र. । d) पाभे. वैप १ परि.

अज्ञाद्: तै १, ६, २, ३ टि. द्र. । e) पाभे. वैप १ परि. अन्नाद्याय काठ ७, १३ टि. द्र. । f) विप. । उस. पूष. कस. ।

g) द्वस. । h) त्रिप. च नाप. (यज्ञ-विशेष- [तु. निसू ७, ७ : १७]) च । i) विप. । बस. । j) विप. । उस. ।

k) अन्नजानाम् इति जीसं. । l) षस. । m) नाप. । उस. । n) द्वस. > बस. । उप. २आद्य- ।

o) विप. । उस. । p) षस. । पूष. नाप. (इष्टि-विशेष-). । q) सपा. हिध २, ६, ५ आशिनः इति पाभे. †

r) सप्त. लुक् द्र. । s) विप. । बस. उप. = अक्षर-विशेष- । t) तस. उप. = सव्येतर-हस्त- ।

१४, ३३; मीस् १०, ६, ५९.
अ-दक्षिण-प्रत्यासङ्ग^a- ङे शुभ्रा
 ५, २.
अ-दग्ध^b- गधः कप्र २, ५, १३;
 -ङ्घाः बौध २, ११, ४२;
 गौपि २, ४, १९.
अ-दग्घ्वा^b पागृ ३, १०, ५.
१अ-दण्ड^c- ण्डः शंघ ३०४.
२अ-द(ण्ड >) ण्डा^d- ण्डा आपश्रौ
 १२, २, ७; १५, ३, १०; भाश्रौ
 ११, ३, ६; हिश्रौ ८, १, ३४;
 २४, १, १९.
अदण्डसुगा(च्-आ)कृति^d- तिम
 वैश्रौ १५, २: १३^e.
अ-द(ण्डक >) ण्डिका^d- काम्
 माश्रौ २, ३, १, १८.
अ-दण्ड्य^f- ण्ड्यः शंघ ३२९; आपघ
 २, २८, ११; विध ३, ९४; हिघ
 २, ६, १२; गौध ८, १२; -ण्ड्याः
 शंघ ३०७; -ण्ड्यानाम् विध
 ५, १९५; -ण्ड्यौ शंघ २५८.
अदण्ड्य-दण्डन^g- ने वाध १९, ४२.
१अदत्^h- √ अद् द्र.
२अ-दत्^h- द्ते मागृ २, १६, ३१.
अ-दत्तⁱ- त्ताः बौश्रौ ११, ६: ३२;
 १२, ७: ४२; -त्तानाम् शंघ
 ४१०; -त्तानि वैध ३, २, ३.
अदत्त-पूर्व-धन^j- नम् अप्राय ५, १.

अदत्त-हरण^k- णम् कागृ ३, १२.
अदत्ता(त्-आ)दान^k- नम् गौध २,
 २३.
अदत्ता(त्-आ)दायिद्^l- यी शंघ
 ३७७: १६.
अ-दत्त्वा बौध २, ३, १७^l; ७, २०^l;
 विध ६३, १८; ६७, ४०; ६८, ३२.
अ-ददत्^k- दत् वाधुश्रौ ३, १७:
 २३; निस् ४, ३: ३; विध ५,
 ९२; -दत्म् वाधुश्रौ ३, १७:
 २२; -दते आश्रौ २, १८, १३^l.
अ-दधि^l- धि गौध १७, १२.
अदन- √ अद् द्र.
अ-दन्त^l- न्ताः काध २७९: १०३.
अदन्त-स्व- स्वम् मीस् ३, ४५.
अ-दन्तक^k- कः वृदे ४, १३९; या
 ६, ३१^l; -ङ्काय आपश्रौ २०,
 १२, ५; बौश्रौ १५, १९: १६;
 वाधुश्रौ ३, ८३: १५.
अ-दन्त-जात^l- त्तानाम् बौपि ३,
 ६, ३^m; -ते आगृ ४, ४, २४;
 विध २२, २७.
अ-दन्ता(न्त-आ)घातिन्ⁿ- तिनम्
 लाश्रौ ६, १०, १८.
अ-दन्त्य^o- न्त्यम् कौगृ १, १६, ११.
अ-दग्ध, द्घ्या^k- द्घः आश्रौ ३, १२,
 १४^p; -द्वम् माश्रौ २, १, २,
 ३६^q; शांगृ ६, ४, १^r; ९^r; -द्व्याः

आपश्रौ; -द्व्यासः, -द्वेन शाश्रौ;
 -द्वेभिः बौश्रौ २६, १५: ७.
अदग्ध-मनु^r- नो^r वाश्रौ १, ३,
 ७, १२^q.
अदग्ध-व्रत-प्रमति^k- तिः हिश्रौ
 २१, १, २^q.
ङ्गदग्घ्वा(व्य-आ)यु^k- यो काश्रौ
 ३, ७, १४; आपश्रौ ३, १०, १;
 बौश्रौ १, २०: २४; २, १८:
 १७; भाश्रौ ३, ९, ५; वाश्रौ १,
 ३, ७, १२; वैश्रौ ७, १०: ८;
 १२: २; हिश्रौ २, ५, २७; ६,
 ४, ९; शुश्र १, १३६.
अ-दग्ध^v- द्ग्धः आपघ १, २३, ६;
 हिघ १, ६, १४.
अ-दरणीय^w- याः या ९, ९.
अ-दर्वि-होम^x- मानाम् आपश्रौ २४,
 ३, १३.
१अ-दर्शन^v- नम् पा १, १, ६०;
 २, ५५; ४, २८; -नस्य पावा
 १, १, ६२; २, ५१; -नात्
 काश्रौ १, ४, ११; बौध १, १,
 २५; -ने काश्रौ २५, १२, १९;
 -नेन काश्रौसं ३१: ११.
अदर्शन-संज्ञा^y- > संज्ञिन्- >
 ङि- स्व- स्वात् पावा १, २, ५१.
२अ-दर्शन^z- नात् पा ५, ४, ७६.
अ-दर्शनीय^z- यात् शांगृ ७, २, ५^{aa}.

a) तस. उप. षस. । b) तस. । c) तस. उप. =शासन- । d) विप. । बस. । e) सपा. आपश्रौ
 १२, २, ७ विशिष्टः पाभे. । f) त्रिप. । तस. । g) षस. । h) कस. पू. सुप्रुपीयः समासः । i) विप. । उस. ।
 j) एवा इति पाठः ? यनि. शोधः । k) वै १, परि. च द्र. । l) विप. । तस. उप. बस. । m) आ दन्तजननाव
 इति B. । n) तस. उप. उस. । o) विप. (नामन्-). बस. उप. =दन्तस्थानीय-वर्ण- । p) पाभे. वैप १
 परि. अदग्धः मै ४, ११, ४ टि. द्र. । q) पाभे. वैप १ परि. दरिद्रम् तै ३, १, १, २ टि. द्र. । r) पाभे. वैप १ परि.
 अदग्धम् तै ३, १, १, २ टि. द्र. । s) विप. (अग्नि-). बस. उप. =मनुष्य- इति संभाव्येत, यद्वा =दीप्ति- (< √ मन्
 (बधा.) इतीव ? । t) पाभे. वैप १ परि. अशीततनो टि. द्र. । u) षप्रतिः इति पाठः ? यनि. शोधः (तु.
 सपा. ऋ २, ९, १ प्रष्टु.). । v) तस. उप. भाप. । w) विप. (अग्नि-). तस. (वैतु. दु. आ-द् इतीव ?) ।
 x) तस. > वृत्त. । y) मज्जे. कज. । z) तस. उप. =चक्षुस्- । a¹) अदर्शनीयात्, अश्वघणीयात्, अनिष्टप्राणे इति
 पाठस्य स्थाने अदर्शनीया इति समस्तः पाठः पृ १०४ द्र. ।

अदर्शनीया (य-अ) श्रवणीया(य-अ)
निष्ठाघ्राण^० -गे कौट ३, ९,
२३.
अ-दश-रात्र^० -त्रेषु लाश्रौ ६, २,
३०.
अ-दशाक^० -कम् हिश्रौ ७, २, ७७.
अ-दशा(श-अ)ह-व्यपेत^० -तम्
कौसू १४१, १२.
!अदः-पुरः सवने^० अत्राय २, ९.
अदस्^१ - > अदस्- -†दः शाश्रौ;
आपश्रौ ५, ९, ११^५; १३, १६,
१०^५; लाश्रौ २, ९, १^५; ३^५; -दसः
पा १, १, १२; ७, २, १०७;
पावा ६, १, ८४; ८, २, ६; ८०.
†अमी-मी बौश्रौ; -०मी माश्रौ
१, ४, ३, १५; -मीषाम् दाश्रौ.
अमु, मू-मुना आपश्रौ १२, २२,
२^५; -†मुम् मागृ २, १, ६^५;
-मुष्मात् काश्रौ; -†मुष्मिन्
आश्रौ; -मुष्मै आश्रौ; काश्रौ
२०, ८, ४†^५; आगृ १, ३, ७^५;
हिगृ १, ३, ३^५; ७, २०^५; २,
२०, ६^५; द्रागृ २, १, २३^५; आपमं
२, १९, १-६^५; -†मुष्य काश्रौ;
-†मुष्याः माश्रौ; -†मुष्यै
आपश्रौ; शागृ १, ९, १८^{२५};
३, १३, ५^५; -०मू माश्रौ १, ४,

३, १५†; -मूः आपश्रौ; हिश्रौ
१६, ४, १२†^५; -मून् वैध २,
४, ४; -मूनि वाधुश्रौ ३, ८३ : ३;
-†मूम् आपश्रौ १, १३, ४.
अमु-क-कम् अप ३५, १, २†;
४०, २, ९.
अमुक-गोत्र^० -त्राय आम्रिगृ
१, ६, १ : ६†; १५.
†अमुकगोत्री^० -त्रीम्
आम्रिगृ १, ६, १ : ६; १५.
अमुक-शर्मन्^० -र्मणम् गौपि
१, ४, ७.
अमुक-सगोत्र- -त्रः अप
४०, ३, १.
अमु-तस (:) शाश्रौ १, ४, १५.
अमुतः-प्रदान^० -नम् बौश्रौ
१४, १० : ३०.
†अमुत्र > त्रा शाश्रौ ४, ९, ४.
†अमुत्र-भूय^१ -यात् कौसू
५५, १७; अत्र ७, ५३; भाशि
४६.
अमु-था या ३, १६; ५, ५.
अमु-या^१ आपश्रौ ३, १३, ५^०†.
अमुवत् ऽअमुवत् काश्रौ ३, २,
८; आपश्रौ २, १६, ५; बौश्रौ १,
१५ : २९; माश्रौ १, ३, १, २६;
वैश्रौ ६, ४ : ११; हिश्रौ २, १,

५०; वाश्रौ १, ३, ४, १८.
अमुष्मिन् > अमुष्मिक^० -
-कानि कप्र १, १०, १२.
अमुष्य^१ पाग ४, १, ९९.
†अमुष्यायण^१ - पा ४,
१, ९९; -णः बौश्रौ; -णम् आश्रौ;
-णस्य आपश्रौ; -ऽणात् वृदे
१, २५; २८; -गाय बौश्रौ; -णे
अथ १६, ७.
अमुष्य-कुल^१ - पाग ४, ४,
९९; ५, १, १३३.
अमुष्यकुलक- पा ५,
१, १३३; °कुलिका- पावा ६,
३, २०; °कुलीन- पा ४, ४, ९९.
अमुष्य-पुत्र- (> अमुष्य-
पुत्रक- पा.) पाग ५, १, १३३.
अमुष्यपुत्रिका-
पावा ६, ३, २०.
†असकस्- -कौ^० काश्रौ २०, ६,
१८; पावा ७, २, १०७.
असकस्- -कः^० पावा ७, २, १०७.
†असौ आश्रौ; वाश्रौ १, ६, १,
३०^५; शागृ १, २४, ८; मागृ १,
१४, ८^५; आपमं २, १, ३^५; १४,
११-१४^५; या ३, १६^५; -०सौ
आपश्रौ ४, १६, ४; लाश्रौ ३, ११,
३; माश्रौ १, ४, ३, १५.

a) दस. १। पाभे. पृ १०३२ द. १। b) विप. १। बस. १। c) विप. (दशा-पवित्र-)। बस. उप. दशा- =प्रान्त-भाग-।
d) विप. (श्राद्धिक-द्रव्य-)। तस. > तस. १। °दसाह इति पाठः ? यनि. शोधः। e) पाठः ? यद्, (अदस्->) अदः
(ब्राह्मणम्), पुरः-सवने > -ने इति त्रि-पदः शोधः (तु. [अंशतः] संस्कृतः टि. ३६१)। f) वैप १, परि. च द. १।
g) पाभे. वैप १ परि. अदः काठ ७, १२ टि. द. १। h) पाभे. वैप १ परि. अदः मै १, ४, १ टि. द. १। i) पाभे.
वैप १ बृहत् ऋ १०, १७०, १ टि. द. १। j) पाभे. वैप १, १४२८ ० टि. द. १। k) सपा. शौ ३, २१, ८ इमम् इति पाभे.।
l) पाभे. वैप २, ३३३. अमुष्मै माश्र १३, ३, ५, २ टि. द. १। m) अस्ः इति पाठः ? यनि. शोधः। (तु. सपा.
ऋ १, २३, १७)। n) विप. (वधू-). स्त्री. स्त्रीष प्र. १। o) पाभे. वैप १ परि. २अमुष्या काठ ३१, १४ टि. द. १।
p) भवार्थे ठञ् > इकः प्र. उंस. (पावा ४, ३, ६०)। q) वैतु. पाति. षम् इति पाठः ?। r) षष्ठया अलुक् (पावा
६, ३, २०)। s) वैकल्पिकम् औष्वम्। t) उत्तरवेद्या उत्तरौ अंसौ (कोशौ) समया (तन्निवृत्ते) स्फयेन धाराप्रवाहार्थं
वर्मै कर्तव्यम् इति वा. द. १। u) पाभे. वैप १ परि. अथो ऋ १०, ८५, २ टि. द. १। v) सपा. शौ ६, ६८, ३,
विशिष्टः पाभे. १। w) सपा. आश्रौ २, १०, १८ सर्वाः इति पाभे.।

असौ-यज ^० -जम् आश्रौ ८, १, ६; शाश्रौ ७, ८, ४.	अ-दाभ्य ^० -भ्यः आपश्रौ ६, १३, ४; -भ्यः आश्रौ ४, १२, २१; शाश्रौ ३, ५, ९१; आपश्रौ ९, ४, १७; हिश्रौ ११, ८, २१ ^क ;	अ-दायाद, दा ^१ -दा या ३, ४ ^{३३} ; -दाः बौध २, ८, १५.
असौ-शब्द-प्रथमा ^० -मया आमिष्ट १, ६, २: ११.	शांष्ट २, १३, ५१; -भ्यम् शाश्रौ; वाष्ट १५, १०; -भ्यस्य हिश्रौ ८, २, २८; -भ्या आश्रौ ७, ५, ९; शाश्रौ १२, २, ५; १५; या ३, २०; -भ्याः हिश्रौ ८, ३, ३३; -भ्याय वैश्रौ २, ६: ५; -भ्ये आपश्रौ; -भ्येन बौश्रौ २५, १७: १५; हिश्रौ ८, २, ३७.	अदायाद-बन्धु ^० -न्धूनाम् वाध १७, २६.
अ-दस्त ^० -स्तम् आपश्रौ १, १४, ३; बौश्रौ १, ३: ३५; भाश्रौ १, १४, ९; माश्रौ १, १, ३, ३५; वाश्रौ १, २, २, ३३; वैश्रौ ३, ८: ९; हिश्रौ १, ३, ५५.	अदाभ्य-ग्रह ^० -हम् वैश्रौ १५, १०: १: ६.	अदायाद-बान्धव ^० -वाः वाध १७, ३८.
अ-दस्यु-प्रवेक्ष्य ^० -इयम् बौध २, ३, ५१.	अदाभ्य-देवता-> ०थ्य-त्यानि शुश्र १, ५३५.	अ-दायिन् ^० -यि आपश्रौ ९, ९, ६; भाश्रौ ९, १२, ३.
अ-दहन ^० -ने हिपि १०: १२.	अदाभ्य-पात्र ^० -त्रम् बौश्रौ १४, १२: ३; -त्रे बौश्रौ १४, १२: ११.	अदायिनी-०नि या ६, ३०.
अ-दातृ ^१ -तारम् शंघ ३०३.	अदाभ्यां(भ्य-त्रं)शु ^० -शुम् आपश्रौ १२, १२, १; १३, १०, ५; वैश्रौ १६, १: १०; १०: १०; हिश्रौ ९, ३, २७; -शूनाम् वैश्रौ १५, १३: ३.	अ-दार ^० -रः वैध २, ५, ८; ३, ५, १३.
१अदान-√अद् द्र.	अदाभ्यातृण ^० -ण्णे माश्रौ ६, १, ७, ११; २, १, १४; ३, १५.	अ-दारसृत् ^० -सृत् आपश्रौ २, २०, ६; भाश्रौ २, १९, १; हिश्रौ २, ५, ४७; कौसू २, ३९; १४, ७; अप ३२, १, १३; १८; अत्र १, २०.
२अदान ^१ -नम् काश्रौ १०, ३, २; ९, ७; १४, २, २५; २५, १, १६.	अ-दासी-दास-संप्रदान- करण ^१ -णे शंघ ३१९.	अ-दाशुर्त् ^० -रिः शाश्रौ १२, २०, २.
३अदान ^० -नान् या ११, २.	अ-दासी-दास-संप्रदान- करण ^१ -णे शंघ ३१९.	अ-दास्यत् ^० -स्यन् माश्रौ २, २, ५, १८; ३, ६, ८; २५.
अ-दान-कर्मन् ^० -मार्णः या ३, ११.	अ-दाहा-हाः विध २०, ५२ ^२ ; -हान् वैष्ट ५, ११: १; -हानाम् वैध ३, ९, १.	अ-दाह्य-ह्यः विध २०, ५२ ^२ ; -हान् वैष्ट ५, ११: १; -हानाम् वैध ३, ९, १.
अ-दान-निष्ठा ^१ -ष्ठा अप ७० ^२ , १६, १.	अ-दिक ^० -कम् निस् ५, ७: १९.	अ-दाह्य-ह्यः विध २०, ५२ ^२ ; -हान् वैष्ट ५, ११: १; -हानाम् वैध ३, ९, १.
अ-दान-प्र(ज्ञा>)ह ^० -ज्ञाः या ३, ११.	अ-दिक्-स्त्री-स्त्रियाम् पा ५, ४, ८.	अ-दित्यै ^० -तये शाश्रौ; शांष्ट २, १४ ४ ^१ ; या ८, ९ ^१ ; - ^१ तिः आश्रौ; आपश्रौ २, ५, ९; ६, १ ^१ ; भाश्रौ २, ५, १३ ^१ ; वाश्रौ १, ३, १, २४ ^१ ; वैश्रौ ५, ३: १० ^१ ; हिश्रौ १, ७, २८ ^१ ; आपमं
अ-दानीय ^१ -याय आपश्रौ १३, ७, १३ ^१ ; गो १, ३४.	अ-दिक्-स्त्री-स्त्रियाम् पा ५, ४, ८.	अ-दित्यै ^० -तये शाश्रौ; शांष्ट २, १४ ४ ^१ ; या ८, ९ ^१ ; - ^१ तिः आश्रौ; आपश्रौ २, ५, ९; ६, १ ^१ ; भाश्रौ २, ५, १३ ^१ ; वाश्रौ १, ३, १, २४ ^१ ; वैश्रौ ५, ३: १० ^१ ; हिश्रौ १, ७, २८ ^१ ; आपमं
अ-दान्त ^१ -न्तम् आपश्रौ ६, २९, ८; -न्तस्य विध ७२, ४; -न्तान् गौध ११, ३; -न्तेषु द्राश्रौ ५, ४, १९ ^१ ; लाश्रौ २, ८, १९; -न्तैः विध ६३, १७.	अ-दिम्भक ^१ -कानाम् आपध १, २०, ८; २, २९, १४; हिध १, ६, २२.	अ-दिम्भक ^१ -कानाम् आपध १, २०, ८; २, २९, १४; हिध १, ६, २२.
	अ-दा(य>)या ^० -याः बौध २, २, ४७.	अ-दा(य>)या ^० -याः बौध २, २, ४७.

a) असौ यज इति वाक्यस्यानुकरणात्मको निर्देशः द्र. । b) विप. (ऋच्-). कस. > बस. । c) वैप १, परि. च द्र. । d) विप. (ग्राम-). तस. > तुस. । e) विप. । बस. । f) तस. । g) तस. उप. बस. । h) दान्तेषु इति पाठः? यनि. शोधः (तु. संस्कृतुः टि.) । i) पाभे. वैप १ परि. अदब्धः मै ३, १६, ४ टि. द्र. । j) पाभे. वैप १ परि. अदब्धः मै ४, ११, ४ टि. द्र. । k) भूरिदाभ्यः इति पाठः? यनि. शोधः (तु. मै २, १३, १३) । l) पाभे. वैप १ परि. अदाभ्यम् टि. द्र. । m) कप. । n) षस. । o) पाठः? अदाभ्याम् (नाप. [आहुतिम्.]), आतृणो [सप्त१] इति द्वि-पदः शोधः (तु. सप्र. तै ५, ७, ४, १ मै ३, ३, ९ बौश्रौ १०, ३१: ९ प्रसू.) । p) सपा. मै ४, ६, ४ अदायात् इति पाभे. । q) विप. । तस. । r) तस. > षस. > चस. > कस. । s) पाभे. वैप १ परि. अदित्यै मा २२, २० टि. द्र. । t) पाभे. वैप १ परि. अदित्यै मा २२, २० टि. द्र. ।

२, १, १^a; आगृ १, १७, ७^a; शां १, २७, ७^b; मागृ १, २१, ३^a; १४^a; वागृ १, १२^o; कौसू ५३, १८^a; निघ १, १; ११; २, ११; ४, १; ५, ५; या १, १५; १६; ४, २२^o; २३^o; ११, २२; २३; -तिम् आश्रौ १, २९⁺; -ती निघ ३, ३०; -०ते आश्रौ २, १, २९; आपमं २, ४, २^b; कौगृ १, १९, १०^b; पागृ २, २, १, ६^a; ७^a; या ११, २३; २४; -ते आश्रौ ४, १२, २^d; ५, १९, ४^e; माश्रौ १, ३, २, ७^f; या २, १३; ४, २३; ७, २९; ११, २३⁺; १२, १४⁺; -तौ जैश्रौ १९ : १२; -⁺स्याः आश्रौ; शाश्रौ ४, ११, १^f; काश्रौ ३, ३, १२^f; ७, ६, १८^g; आपश्रौ १०, २७, १०^h; माश्रौ १, २, २, २७ⁱ; २, १, ४, २९^h; ६, १, २, ९; २, १, २४^j; हिश्रौ १, २, ५५^h; ७, ३, ५२^h; ८, ३३^h; -त्यै ⁺काश्रौ २, ७, १; ७, ९, ६^h; आपश्रौ १५, ९, ३; ५^k; माश्रौ १०, १४, ७; ११, ९, ६⁺; माश्रौ ४, ३, ५^k; वैश्रौ १३, ११ : ३; ८^k.
⁺आदितेय¹ -यम् या २, १३^o; ७, २९.
 आदित्य- प्रभृ. यद्र.

अदिति-देव(ता >)त^m -ताः वीश्रौ २४, ११ : ३.
 अदिति-देवता->०त्य¹ -स्यानि अत्र ७, १.
 अदिति-निर्ऋति^m -स्योः चाश्र १६ : १७.
 ?अदितिरशनाच्छिन्नपत्र(>)-
 अ^o -आ माश्रौ १, २, ३, २४.
 अ-दिदीक्षाण^p -णाः निस् ५, १३ : २५.
 अ-दिवा(वा-आ)शिन्^p -शी आपघ १, २७, ७; हिघ १, ७, ३२.
 अ-दिवा-स्वापिन्^p -पी आम्रिगृ १, १, ४ : ३०; हिगृ १, ८, २; आपघ १, २, २४; हिघ १, १, ५७.
 अ-दीक्षित^p -तः शाश्रौ ३, ११, १४; काश्रौ ११, १, १८; २४, ७, २; आपश्रौ २३, १४, २; माश्रौ ११, १, १; माश्रौ २, १, ३, ३; ५, २, १६, ६; वाधूश्रौ ४, ३७ : १६; वाश्रौ ३, २, १, १७; द्राश्रौ १५, २, ४; लाश्रौ ५, १०, ३; १६; निस् १०, ११ : १९; -तम् आपश्रौ ११, २१, २; माश्रौ २, २, ५, ३१; वाधूश्रौ ४, ३७ : ५; १८; वैश्रौ १४, १९ : २; हिश्रौ ७, ८ : ६२; जैश्रौ १ : १९; -तस्य शाश्रौ ९, २२, १; काश्रौ ८, ९, २६; आपश्रौ १६, १३, ५; वीश्रौ ९, २ : ३; माश्रौ ४, १, ७; वाश्रौ

२, १, ४, १; वैश्रौ १८, ११ : २१; हिश्रौ ११, ५, १६; -ताः आश्रौ ५, ६, १९; ६, १३, १२; शाश्रौ १६, २०, ७; काश्रौ १०, १, २४; आपश्रौ १०, १७, १०; २१, १, ४; वीश्रौ २६, ३२ : २६; माश्रौ १०, १०, १२; माश्रौ ४, ३, ३५; वैश्रौ १२, १३ : ४; हिश्रौ १०, २, ४७; -तानाम् हिश्रौ १६, १, १४; -ते आश्रौ ४, ८, १९.
 अदीक्षित-वाच्^p -वाचः माश्रौ १०, ११, १२.
 अदीक्षित-वाद्^p -दम् आपश्रौ १०, १८, २; माश्रौ २, १, २, ३७; हिश्रौ १०, २, ६६.
 अदीक्षिता(त-अ)यन्^p -नानाम् शाश्रौ ३, ८, १.
 अ-दीन, ना^p -ना या ४, २२; -नाः मागृ १, २२, ११⁺; -नानि या ४, २३; -नायाम् शाश्रौ १६, १०, १६.
 अदीन-सत्त्व^m -स्वाः विघ १९, २४.
 अ-दीप^m -पम् गौपि २, ६, ४.
 अ-दीर्घ- -र्घः पात्रा १, १, ५६; -र्घम् कौशि २०; नाशि २, ३, ७.
⁺अ-दीव्यत् -व्यन् आम्रिगृ २, ४, ४ : १०; १९; अय ३७, ११, १; वीध ३, ७, ११; १४.
⁺अ-दुःख- -खम् वाध २, १०; विघ ३०, ४७; हिघ १, १, १८; या २, ४.

- a) पाभे. वैप १ परि. अदितिः शौ ६, ६८, २ टि. द्र. । b) पाभे. वैप १ परि. अदिते तै २, ३, १०, ३ टि. द्र. । c) पाभे. वैप १, परि. अच्छिन्नपत्रा काठ १, ११ टि. द्र. । d) पाभे. वैप १ परि. अदितिः तै ४, ४, १२, ५ टि. द्र. । e) सया. तां १, ५, १९ अदितौ इति पाभे. । f) पाभे. वैप १ परि. अदितेः काठ ३१, १४ टि. द्र. । g) पाभे. वैप १ पृथिव्याः तै १, २, ५, १ टि. द्र. । h) पाभे. वैप १ परि. अदित्याः तै १, २, ८, १ टि. द्र. । i) पाभे. वैप १, १५७० f टि. द्र. । j) पाभे. वैप १ परि. अदितेः का. १५, ८, ४ टि. द्र. । k) वैप १, ८२२ h टि. द्र. । l) वैप १, परि. च द्र. । m) विप. । बस. । n) द्रस. । o) पाठः ? पतिरसि अनाच्छिन्न-पत्रा इति त्रि-यदः शोधः । p) विप. तस. । q) षस. । r) सया. संवादे अतृप्तम् इति पाभे. ।

अ-दु(ग्ध>)ग्धा- -ग्धाः आपश्रौ १७, ८, ४; १९, २२, १६; माश्रौ ५, २, ३, ८; १२; वाश्रौ २, १, ८, ५; हिश्रौ २२, ४, १७; शुप्रा ४, ७८; तैप्रा १२, ७; -ग्धानाम् बौश्रौ २७, १३: ३; -ग्धायाः अप्राय २, ८.
 अ-दुर्बल^a- -लः वृदे ५, ५७.
 †अ-दुर्-मङ्ग(ल>)ली^b- -लीः^b आपमं १, ११, ५; जैगृ १, २१: ११.
 अ-दुष्ट, घा^c- -ष्टम् शंघ ३९०; वैध ३, ४, ५; मीसू ६, ५, ६; -घात् काश्रौ २५, ५, २२; -घाम् विध ५, ४७.
 अदुष्ट-त्व- -त्वात् काश्रौ २३, ४, २४; २५, ९, ८; मीसू ६, ५, ८.
 अ-दुष्ट-कर्मन्^d- -र्मणाम् आपध १, १, ६; हिघ १, १, ६.
 अ-दुष्य^e- -ष्यम् वाध ११, २०.
 अ-दुहा(न>)ना^f- -नायाम् काश्रौ २५, १, १७.
 अ-दूर^g- -रात् काश्रौ २५, ४, १; पा ८, २, १०७; -रे द्राश्रौ १, १, १८; लाश्रौ १, १, १७; पा ५, ३, ३५.
 अदूर-बान्धव^h- -वम् वाध १५, ६.
 अदूर-भवⁱ- -वः पा ४, २, ७०.
 अ-दूर-ग^j- -गाः वैध १, १०, ३; ११, ३.
 अ-दूर-गामिन्^k- -मी लाश्रौ ९, ८, ८.
 अ-दुष्क^l- -कम् निस् २, ९: २०.

अ-दू(ष्य>)ष्या^m- -ष्याः बौध १, ५, ५०.
 अ-दृढ-रोगिन्ⁿ- -गिणः अप ६८, १, २८.
 अ-दृश्य^o- -श्यम् वृदे ५, १५६.
 अ-दृश्यमान^p- -नः वाधूश्रौ ४, २६: २^३; -नम् वाधूश्रौ ४, २६: ८; ९; १५; १६; -ने बौश्रौ २०, १: १२; -नेषु शाश्रौ ४, १५, ९.
 अ-दृष्ट^q- -ष्टः लाश्रौ; -ष्टम् वैश्रौ; -ष्टान् अप्रा २, ४, १७†; -ष्टानाम् अप ६८, २, १५; -ष्टाय जैगृ १, १२: २०†; -ष्टे काश्रौ ४, २, १; -ष्टेन गौध २, ३२.
 अदृष्ट-त्व- -त्वात् बौध २, ६, ११; ३१; पा १, १, ६०.
 अदृष्ट-प्रतिघाति-त्व- -त्वात् मीसू ९, ३, ११.
 अदृष्ट-वर्ण^r- -र्णे ऋप्रा १०, १५; ११, २७.
 अदृष्टा(ष्ट-आ-ख्या>)ख्य^s- -ख्यः वृदे ४, ६४.
 अदृष्टा(ष्ट-आदेश>)देशा^t- -शे आश्रौ २, १, ८.
 अदृष्टा(ष्ट-अ)र्थ- -र्थः कौशि ७६.
 अ-दृष्ट्वा^u बौश्रौ १६, २७: २४; २१, ७: २; वैगृ ३, ९: ५.
 अ-द्रेय^v- -यानि विध १३, २.
 अ-द्वेव^w- -वः शाश्रौ १८, ८, ५†; या ११, ४; -०वाः आपमं २, २२, १०; भागृ २, २७: ४.
 अद्वेवी^x- -व्यः निस् ७, ११: २०.

अ-देवता^y- -ताः या ७, ४.
 अदेवता-स्तुति^z- -त्यः निस् २, ११: १९.
 अ-देवता-नामन्^{aa}- -मानि बौश्रौ ६, ६: ६.
 अ-देवता-विद्^{ab}- -विदः वृदे ८, १३१.
 †अ-देव-पितृ-यजन^{ac}- -नः बौश्रौ २५, ३: ४.
 अ-देव-यजन^{ad}- -†नः आपश्रौ २, २, १; ४†; बौश्रौ १, ११: १८; भाश्रौ २, १, १४; वैश्रौ ४, १२: २; हिश्रौ १, ६, ८१; -नम् आपश्रौ †२, २, १; ४; १९, १७, १६; बौश्रौ १४, १५: १८; हिश्रौ २२, १, २७.
 अ-देवर^{ae}- -रात् गौध १८, ८.
 अ-देश^{af}- -शे ऋप्रा १४, १५; पा ८, ४, २४.
 अ-देश-काल^{ag}- -लात् पा ४, ३, ९६; ४, ७१.
 अ-दैव^{ah}- -वम् गौपि २, ६, २; कप २, ३, ६.
 †अ-दोमद्^{ai}- -दम् अप्रा ३, ४, १.
 †अ-दोष^{aj}- -षः काश्रौ २५, ५, २५; शंघ १७; १८१; विध ५, १६४; गौध १८, ३६†; सुधप ८७: १५; १९.
 †अ-दोष, षा^{ak}- -षः मीसू १२, ३, १७; -षम् बौध १, २, ३५; गौध २३, ३०; -षाः अप २३, ९, ४; -षाम् अप्राय ४, १.
 अ-दोह^{al}- -हे काश्रौ ७, ४, २२; २५,

a) तस. । b) पाभे. वैप १ परि. अदुर्भङ्गली शौ १४, २, ४० टि. द्र । c) विप. तस. > बस. । d) विप. । बस. । e) सस. । f) नाप. (योगिमेद-विशेष-) । तस. । g) विप. (प्रथम- [द्वैपद-]) । बस. । h) वैप १ परि. द्र. । i) षस. । j) तस. उप. षस. । k) विप. । तस. उप. उस. । l) तस. > द्वस. > षस. । m) वैप १, परि. च द्र. । n) पाठः? देवयजनात् इति शोधः (तु. वैप १, १६२४ i) । o) तस. उप. द्रस. । p) विप. (एकोद्दिष्ट-श्राद्ध-) । बस. उप. = देवपक्ष- । q) वैप १, १२४† द्र. । r) [अ-करणे] दोषः इति जीसं. ।

६, २.
 अङ्क^a- पाठ १, १२३; -ज्ञान आपश्रौ
 ७, २, ९; भाश्रौ ७, २, ४.
 १!अङ्क^b- द्वाः चव्यू २ : ३६.
 २*अङ्क^c->?अङ्का(द्ध-अ)द्व^d- द्वात्
 माश्रौ २, ५, ५, २०.
 अद्-धा^e माश्रौ ५, १९, ३८; अप
 ४८, ७१; निघ ३, १०; शुप्रा
 ४, ७८; पाग १, १, ३७; ४, ५७;
 ७४.
 अङ्का√कृ पा १, ४, ७४^f.
 ✓अङ्का > ऋअङ्काति^g- -तयः
 अप ४८, ८५; निघ ३, १५.
 अद्-भुत^h- पाठ ५, १; पाग ८, १,
 ६७; -तः आमिष्ट २, ५, २ :
 १५; बौष्ट ३, ६, ८; याशि १,
 ९०; अप्रा ३, ४, ११; -तम्
 शाश्रौ ६, १३, ३१; जैश्रौ १३ :
 २८१; आपमं १, ९, ८; आश्र १,
 २२, १३१; कौष्ट २, ६, २१;
 शांष्ट २, ८, ११; आमिष्ट १, १,
 ४ : ४९१; ५, २ : ६; ऋबौष्ट
 ३, १, ६; २, ७; माष्ट १, ५ :
 ५१; वैष्ट २, १२ : १५१; हिष्ट
 १, ८, १६१; ऋगोष्ट २, ७, १९;
 ३, २, ४१; ऋजैष्ट १, १४ : ७;
 २, ७ : ५; कौसू ११९, १; १३५,
 ९१; १४०, ९; १४१, ३३;
 अप्राय २, ६१; ६, १०; अप २, २,
 २; १९, १, ८; ३५, २, ११; ४८,
 ६८; ५९, १, २; ६७, ४, ४; ७, ३;

८, ३; ६९, ३, २; ९, ४; ७०, ३,
 ५; ६, ५; ११, ५; १२, २; ७१,
 १७, ३; ७२, ४, १; २; ६, १; ३;
 वृदे ४, ५०; निघ ३, ३; ऋया
 १, ६४; ६, २१; -तानाम्
 अप्राय ६, १०; अप ३३, २, ४;
 ६७, ८, ६; -तानि कौसू ९३, १;
 अप्राय ३, ६; ७; अप ५०, ४, १;
 ७०^३, १, २; १३, ४; ७२, १, ४;
 -ते काष्ट ७२, १; माष्ट २, १५,
 ६; गोष्ट ३, ३, २९; अप २१, १,
 ५; पावा ६, १, १४३; -तेषु कौष्ट
 ३, ९, ३; शांष्ट ४, ७, ३; ५, ५, ५;
 अप्राय १, ५; अप ३०^३, २, ९;
 -तैः अप ७०, ८, ४; ५.
 अद्-भुत-कर्मन्ⁱ- -र्भ अप ७०,
 ९, ४.
 ऋअद्-भुत-कृतु^j- -०त् शाश्रौ १२,
 २, १४.
 अद्-भुत-दर्शन^k- -नानि अप ५३,
 १, २.
 अद्-भुत-प्रायश्चित्त^l- -त्तानि भाष्ट
 २, ३२ : १; हिष्ट १, १७, ५.
 अद्-भुत-महा-शान्ति^m- -न्तौ अशां
 १४, १.
 अद्-भुत-शान्तिⁿ- -न्तिम् जैष्ट २,
 ७ : १.
 अद्-भुता(त-आ)श्रय^o- -ये अप
 ७०, ३, ५.
 अद्-भुतो(त-उ)त्पत्ति-विकार^p- -रेषु
 अशां १७, ३.

अद्-भुतो(त-उ)त्पात^q- -तेषु आमिष्ट
 २, ५, २ : ६; आपष्ट ८, २३, ९;
 बौष्ट ३, ६, १; बौघ १, ११, ३८.
 अद्यन्- प्रष्ट, अद्यनि-, अद्यर-
 ✓अद् द्र.
 अद्य,>द्या^r आश्रौ; आश्रौ ३, ६,
 २७^k; काश्रौ १९, ५, १८^k; २५,
 १, ११^१; आपश्रौ १२, २०, ९^m;
 माश्रौ १, ७, ४, ४७^k; २, ३,
 ७, ४; लाश्रौ २, १२, १३^k;
 आपमं २, ६, ६^k; शांष्ट १, २८,
 १५ⁿ; माष्ट १, १, १७^k; ११,
 २५^k; २, २, २६^k; या १, ६४;
 ४, १७^३; पा ५, ३, २२.
 अद्य-तन- -नम् वृदे ४, ५०; या
 १, ६; -ने पावा ३, २, ११८.
 अद्यतनी^o- -न्याः अप्रा २,
 २, ६; -न्याम् पावा २, ४, ३; ३,
 २, १०२; ६, ४, ११४.
 अद्यतन-वद्-वचन- -ने पावा
 ३, ३, १३५.
 ?अद्यविधि- -धिः निम् ५, ४ : १.
 अद्य-श्व(<श्वस्-)>->अद्यश्वी(न-
 >) ना- पा ५, २, १३; -ना
 शाश्रौ १६, २२, २५.
 अद्य-सु(त्य>)त्या^p- -त्या वीश्रौ
 १८, २२; १२१; द्राश्रौ १, ४, १९;
 लाश्रौ १, ४, १५; -त्याम् आश्रौ
 ६, ११, १५; काश्रौ १२, ६, २९;
 आपश्रौ २१, ६, २; हिश्रौ १६,
 ३, ३; जैश्रौ ३ : २९; ८ : ४.

a) वैप १, परि. च. द्र. । b) व्यप. (वाजसनेयान्यतम-) । व्यु. ? । c) नाप. (*अङ्क-) । <√*अङ्क
 [अदने] + क्तः प्र. ? । d) विप. (अङ्काद्- L=अमि-) । पाठः ? (तु. सस्थ. अङ्काद्- इत्यत्र टि.; सपा. तै ३, ३, ८, ३
 अङ्काद्- इति पाभे.; वैप १, १८ h, i, WAG [१, १११ b] च) । e) पाका. तु अङ्का√कृ इति । f) कस. ।
 g) षस.>कस. । h) षस. । i) विप. (वियत्-) । बस. यद्वा षस. । उप. अधिकरणे अष् प्र. । j) षस. >
 द्रस. । k) पाभे. वैप १, १५७८ ० द्र. । l) सपा. आपश्रौ ३, १३, १; २४, १२, ६ कौसू ९७, ८ विशिष्टः पाभे. ।
 m) पाभे. वैप १ परि. अद्य तै ३, २, ४, ४ टि. द्र. । n) पाभे. वैप १, ७६९ a टि. द्र. । o) =लुङ्लकार-संज्ञा- इति ।
 p) उस. उप. √सु[अभिषेवे]+भावे ष्यप् प्र. ।

अद्या(द्य-आ)दि- -दिभिः ऋप्रा ७,
३३.
अ(द्य>)द्या-श्च^१- -स्वात् तैप्रा ३,
५१.
अद्यमान- √ अद् द्र.
अद्याशवः ?अघाश(य)वः द्र.
अ-सू(त>)ता^१- -ता आगृ २, ७, १०;
१२.
अ-द्रव्य^०- -व्यस्य पावा २, २, २४;
-व्ये अप ६४, ४, ३; -व्येषु
अप ७२, ३, ८१.
अ-द्रव्य-त्व- -स्वात् मीस् २, ३, २०;
३, ४, २१.
अ-द्रव्य^१- -व्यम् मीस् ७, २, १४^०.
अ-द्रव्य-त्व- -त्वम् मीस् ६, १,
११.
अ-द्रव्य-प्रकर्ष^१- -र्षे पा ५, ४, ११.
अ-द्रव्य-शब्द^१-त्व- -स्वात् मीस्
१, ३, ३१.
अ-द्रि^१- पाउ ४, ६५; -ऋद्वयः आश्रौ;
या ५, ३; ९, ९४; -द्विः शाश्रौ;
निघ १, १०१; या ४, ४४;
-द्विणा काश्रौ ९, ४, १९;
-ऋद्विभिः आश्रौ; या ५, ६;
-द्विम् काश्रौ; या १५, ४;
५; -द्विषु काश्रौ ९, १, ५;
५, १२; -द्वेः काश्रौ; -द्वौ काश्रौ
१८, २, २; बौश्रौ ४, १५;
२५१; वैध २, ३; ५.
अ-द्रि-गो^१->अद्विगो-जा^१- -जाः
या १४, ३१.
अ-द्रि-जा^१- -जाः या १४, ३११.
अ-द्रि-भिद्^१- -मित् आश्रौ ७,

९, ३; शाश्रौ ९, ३, ३; १२,
१२, ४; २५, २; ५; वैताश्रौ ३३,
२०; २१; ऋअ २, ६, ७३; अअ
२०, ९०.
अ-द्रि-भेदन^१- -ने काश्रौ २५, १२,
१६.
अ-द्रि-वत्- -० ऋवः शाश्रौ १८, ९,
२; आपश्रौ १७, ८, ७; बौश्रौ
१५, ६; ४; वैश्रौ १९, ५; ५२;
या ४, ४४; -०वन् या ४,
४.
अ-द्रि-शतऋतु^१- -तोः नाशि २, ३,
१०.
अ-द्रि-सर्ष^१- -र्षेः शोध ३७८.
अद्या(दि-आ)दान^१->०न-प्रवृत्ति-
-ति काश्रौ १०, १, ३.
अद्यादानां(न-अं)शुनिवपनो(न-
उ)पसर्जन-सकृत्प्रहरण-ग्रहण-
होम^१- -मान् काश्रौ १२, ५,
१०.
अ-द्रि^१->अद्वि-सधि^१- -धयोः
पावा ६, ३, ९४.
अ-द्रुग्ध^०- -ग्धौ आमिगृ १, ५, ४;
४९.
अ-द्रुत्, ता^०- -त्तम् वैगृ १, २; ५;
नाशि १, ३, ७^०; -ताम् कौशि
६७; तैप्रा २३, २४; -तायाम्
पावा १, ४, १०९.
अ-द्रुह^१- -द्रुहः शुप्रा ४, ६५;
-द्रुहा माश्रौ २, २, २६; या
९, ३७४; -ध्रुक् भाशि १७.
अ-द्रोघ(व्य>)व्या^०- -व्ये या ९,
३७.

अ-द्रोघ-वाच^१- -वाचम् आश्रौ ८,
१, १८.
अ-द्रोह^०- -हः काश्रौ ८, १, २१;
आपध १, २३, ६; हिध १, ६,
१४; -हेण वैध ३, १, ११.
अ-द्रोहिन्^०- -ही बौध २, ६, २५.
अ-द्रुह^०- -न्द्रे पा, पावा २, ४, ६९.
अ-द्रुह-तत्पुरुष-विशेषण^०-
-णानाम् पावा १, २, ७२.
अ-द्रव्यस्^१- -याः द्विश्रौ १२, ६, ६१.
अ-द्रयाविन्^१- -विनः बौगृ ३, ११,
३१.
अ-द्रादशा(श-अ)ह^०- -हम् शाश्रौ
१४, २२, २१.
अ-द्वार^०- -रेण काश्रौ ८, ४, २४; २१,
४, २७; आपगृ १८, १.
अ-द्विज->०ज-श्व-बिडाल-काक-खर-
मृग-पशु-पक्षि-सरीसृप^१-
-पाणाम् बौगृ ४, ८, १.
अ-द्विज-श्वान-बिडाल-काक-खर-मृग-
पशु-पक्षि-सरीसृपा(प-आ)दि^१-
-दीनाम् बौश्रौ २८, १०; ३; ४.
अ-द्वितीय^०->०यत्व- -स्वात् पावा
६, १, २.
अ-द्वितीय^१- -ये वैगृ ५, १; १४.
अ-द्विपदा^०- -दासु आश्रौ ८, ४, ७.
अ-द्विप्रभृद्यु(ति-उ)पसर्ग^१- -र्गस्य
पावा ६, ४, ९६.
अ-द्वि-योनि^१- -नि ऋप्रा ११, ३.
अ-द्विरु(इ-उ)क्त-त्व- -स्वात्
मीस् ३, ६, २.
अ-द्वि-वचन^०- -नम् मीस् २, ४,
१६.

a) वैप १ द्र. । b) विप. (सभा-) । बस. । c) तस. । d) विप. । बस. । e) विप. (सामन्-) ।
उप. = ऋच्- । f) तस. उप. षस. । g) बस. उप. कस. । h) वैप १, परि. च द्र. । i) कस. (अद्विरूप-गो-) ।
j) विप. (अद्विरूपां गां जनयति यद्वा ततः जायते] हंस-) । उस. उप. < √ जन् । k) षस. । l) द्रस. ।
m) अर्थः व्यु. च ? । n) अद्भूतम् इति लासं ? । o) तस. > द्रस. > षस. । p) द्रस. । *तद्विजश्व इति
पाठः ? यनि. शोधः (तु. बौश्रौ २८, १० : ४) । q) द्रस. > बस. । r) तस. उप. बस. ।

अ-द्वि-वर्ष^a- -र्वे पाण ३, १०, २.
 अ-द्विषेण्य^b- -ण्यः हिश्रौ १२, ६, ६१.
 अ-द्वेषण^c- -णः आमिण् २, ७, ११ : ६.
 अ-द्वेषस्^d- -वसः या ६, ११.
 अ-द्वेषिन्^e- -षी वैध १, २, ७.
 अ-द्वैपदो(द-उ)क्य्य^f- -क्य्यः
 आश्रौ ९, ११, १२.
 अ-द्वया(द्वि-आ)दि^g- -विभ्यः पा ५,
 ३, ३.
 अ-द्व्यु(द्वि-उ)पसर्ग^h- -संस्य पा ६,
 ४, १६.
 *अध्- २अप्- द्र.
 †अध् > घाⁱ आश्रौ; कौसू ७२, १४^f;
 या ३, ३; ७, ३; ११, ३४.
 अ-धन^c- -नाः या ६, २५; -नान्
 शंघ २६२.
 अ-धनुस्^k- -नुषा पा ४, ४, ८३.
 अ-ध(न्य >)न्या^l- -न्या आण् १,
 ५, ५.
 अधम्^m हिश्रौ ९, ५, ३६१.
 अधम-, अधर- अधस्- द्र.
 †अ-धर्मⁿ- -र्मः आपध १, २०, ६; ७;
 २८, ११; काध २७ : ७; हिध
 १, ६, २०; २१; ७, ४७; या
 २, १०; पापवा ६; -र्मस् माण्
 १, ३, ५; वाध ३०, १; बौध ३,
 ६, ८; विध ४८, २२; -र्मणाम्
 आपध १, २१, ११; हिध १, ६,
 ४०; -र्मत् शाण् ४, १२, ८; पा
 ४, ४, ४१; -र्मण्य बौण् २, ८,
 ११; भाण् ३, १३ : १; भाण् २,

१२, ७; -र्मण अप ७२, ४, २;
 आपध २, १४, १५; विध २९,
 ७^२; हिध २, ३, २६.
 आधर्मिक^o- पावा ४, ४, ४१.
 अधर्म-चरण^p- -णात् गोण् ३, १,
 १३.
 अधर्म-चर्या^q- -र्या आपध २, ११,
 ११; हिध २, ४, २६.
 अधर्म-तस् (:) अप ७०^२, १६, २.
 अधर्म-त्व- -त्वम् मीस् ९, ४, ३३.
 अधर्म-संयुक्त^r- -क्तम् आज्यो १०,
 ५; -क्ते गौध ५, २४; १२, ४७.
 अधर्म-संश्रि(त >)ता^s- -ता वाध
 १२, २३.
 अधर्म-संभव^t- -वाः अप ५२, ७, ४.
 अधर्मा(र्म-आ)हृत्^u- -तान् आपध
 १, २८, ११; हिध १, ७, ४७.
 अ-धर्मन्- -र्मा निस् ८, २ : ५१.
 २अ-ध(र्म >)र्मा^v- -र्मा आज्यो
 १३, ७.
 अ-धर्षणीय^w- -यौ वृदे ५, १२७.
 †अधःशशयीत^x हिध १, ८, ५८.
 अधस्^y- -धः आश्रौ; या २, ११;
 पा ५, ३, ३९; -धःऽ-धः काश्रौ
 ९, २, १६; पा ८, १, ७.
 †अधः-क्षेप^z- -पात् याशि १,
 ६३.
 २अधः-क्षे(प >)पा^{aa}- -पा माशि
 ४, १२.
 अधः-पद^{ab}- -दम् काश्रौ १५,
 ५, २६.

अधः-पाद^{ac}- -दे वैध ३, २, ७^a.
 अधः-पिण्ड^{ad}- -ण्डम् काश्रौ १७
 ४, २.
 अधश्-शयिन्^{ae}- -यी वैश्रौ २,
 १० : ३.
 अधःL, श्J-शयन^{af}- -नम्
 आमिण् २, ६, ५; २६; ३, ६, २; ५;
 १०, ३ : ३; बौण् २, ९, २४;
 बौपि १, ९ : १४; ३, ४, २२;
 बौध ३, १०, १४.
 अधः-श(य >)या^{ag}- -याम्
 काश्रौ १६, ४, ३९.
 अधःL, श्J-शय्या^{ah}- -य्या शाश्रौ
 ४, १५, ६; कौण् २, ३, १८; ५,
 ४, ९; शाण् २, ६, ८; आमिण्
 १, २, ३ : २०; आपण् ८, ८;
 बौण् २, ५, ५५; भाण् ३, १२ :
 ४; हिपि ८ : १०; आपध २,
 ३, १३; विध २८, १२; हिध
 २, १, ४४; -य्याम् कौण् २, ७,
 २१; शाण् २, १२, ६; शंघ ३३४.
 अधःL, श्J-शय्या(य्या-आ)-
 सन^{ai}- > ँसनिन्- -निनः गौध
 १४, ३५; -नी गौध २, २७.
 अधःL, श्J-शयिन्^{aj}- -यिनः
 पाण् ३, १०, २५; वैण् ५, ७ : ४;
 -यिनौ आण् १, ८, १०; कौण् १,
 १०, १५; आमिण् १, ६, ३; ४४;
 बौण् १, ७, ९; भाण् १, १९ :
 १०; हिण् १, २३, १०; अप
 १०, १, ३; १३, १, ८; -यी काश्रौ

a) तस. > बस. । b) विप. । तस. । c) विप. । बस. । d) तस. उप. बस. । द्वैपद-> (=द्विपदा-स्तुत-) । e) वैप १, परि. च द्र. । f) पामे. वैप १ परि. अध मै १, ७, १ टि. द्रं. । g) तस. । h) अव्य. =अध । i) नाप.(पाप-)। तस. । j) नाप.। =अ-धार्मिक-। k) भाप.। षस. । l) नृस. । m) द्वितीयासमासः। n) पाठः? (तु. सप्र. †अपशशयीत इति आपध १, ३२, १६ पामे.) । अपशशयीत इति उज्ज्वलदत्तः । उपशशयीत (<उप√श्रि) इति शोषः (तु. मूको., Buhler च) । o) तस. (पा २, १, ७२) । p) विभाषया सत्वम् उत्सं. (पा ८, ३, ४७) । q) अधः पादतः इति BI. । r) विप. । उस. उप. √शी+इतिः प्र. डसं. (पा ३, २, १५७) । s) कस. । t) विप. (औदुम्बरी-समिध्-) । उस. कर्तरि अच् प्र. (पा ३, २, १५) । u) कस. > द्वस. । v) विप. । उस. उप. गिन्यन्तम् ।

५, २, २१७; काठश्री २४; आग
१, २२, १९; पाग २, ५, १०;
आमिग १, १, ४ : २९; बौग २,
५, ७२; माग १, १० : ३; वाग
६, १७; हिग १, ८, २; जैग १,
१२ : ६९; शंघ ३८७; ४४२;
विघ ४६, २४; ५४, १३; सुघ
५३.

अधश्शायि-ता- -ता गौघ
१२, १६ सुधय ८५ : ६.

अधः-शि (ख>) खा^१- -खाः
अप ५२, ७, ४.

१अधः-शिरस्^१- -राः अप्राय
२, ९^१फ.

२अधः-शिरस्^२- -रसी पा ८, ३,
४७.

अधः-शि(र>)रा^१- -राः माशि
२, ९.

अधस्-तन- -नम् नाशि १, ६,
१०.

अधस्-तात् आश्री; हिग १, १५,
६^१फ; गो १, ६; या १२, १३^२.

अधस्तात्-त्वक्^१- -क्कम् हिश्री
४, २, ४३.

अधस्ताद्-दण्ड^१- -ण्डम्^१
वैश्री १८, १७ : २; हिश्री ११,
१, २८; ७, १८.

अधस्तान्-नाभि^१- -भि
माश्री २, ३, ४, २१; ६, १, ७, १०.

अधस्ताम्नाभि-पुष्कर-पर्ण^१-

-र्णे वाश्री २, १, ६, १२.

अधस्तान्-निर्बाध^१- -धम्
वाश्री २, १, ६, १२; वैश्री १८,
१७ : ६; हिश्री ११, ३, २६; ६,
२०.

अधस्ताल्-लक्ष्मन्^१- -क्ष्मा-
णम् हिश्री ११, ७, ४०.

अधस्-त्वक्^१- -क्कम् वैश्री १०,
८ : ७^१फ.

अधस्-पद^१- -पा ८, ३, ४७;
-दम् आश्री १६, २, १०; २०,
३, १३; बौश्री ६, २८ : १५; १०,
२ : २०; १५, ६ : २; १८, ३० :
१५^१फ; २१, १५ : १२; वाश्री ३,
४, १, २५; वैश्री १४, ७ : १३;
हिश्री ११, १, २२; -दे हिश्री
१४, १, ३४.

अधः-संवेशिन्^१- -शिनौ जैग १,
२२ : १२; -शी बौश्री ३, १३ :
५; १८, २४ : ३; २४, ३३ :
१३; २५, २९ : ९; लाश्री १०,
१८, ११; द्राग २, ५, १०.

अधः-स्थाना(न-आ)सन^१->
°न-तिर्यग्वातसेवा^१- -वायाम्
गौघ २, ३३.

अघा(घः-आ)सन-शायिन्^१-
-यी आपघ १, २, २१; हिघ १,
१, ५४.

अधो(धस्-अ)क्ष^१- -क्षम् शाश्री
१०, २१, १२; काश्री १२, ४,

१२; हिश्री ८, ३, ४१; -क्षेण
आश्री ८, १२, २५.

अधो-गति^१- -तिम् शंघ २२६.
अधो-जा(त>)ता^१- -तायाम्
वैध ३, ११, २.

अधो-जानु^१- -नु काश्री २१, ४,
१७.

अधो-दष्टि^१- -ष्टिः विघ २३, ९.
१अधोधराधरैः^१ वैग १, २० : १३.

१अधो-नाभि^१- -भि बौग २,
५, ७२; ३, १६; आपघ १, २४,
११; २८, ११; २, १८, ५; हिघ
१, ६, ६०; ७, ४७; २, ५, ५७.

अधोनाभि-संमित^१- -तः
आपश्री १४, ५, ९^१फ.

२अधो-नाभि^२- -भिम् आपश्री
१४, ७, १२; वाश्री ३, २, ६,
५८; हिश्री ९, ८, ४३.

अधो-निवीत^१- -तः आपघ १,
६, १९; हिघ १, २, ४२; -ताः
आग ४, २, ९.

अधो-बाहुक^१- -काः वैध १, ८,
१.

अधो-बिला(ल-आ)श्रुत^१- -तः
शाश्री ४, ३, ७.

अधो-भाग^१- -गेन वैश्री १, १ :
१४.

अधो-भाव^१- -वः वैग ५, १ : २८.
अधो-भुवन-वर्तिन्^१- -र्तिन्म्
विघ १, ३७.

a) विप. । बस. । b) द्वस. । c) पाभे. वैप १ परि. अधस्पदात् ऋ १०, १६६, ५ टि. द. ।

d) विप. । बस. उप. समासान्तः कप् प्र. । e) सप्र. °दण्डम्<>°नाभि इति पाभे. । f) कस. । g) =अधः-
पद- । h) =अधः-शायिन्- । उस. । i) कस. उप. द्वस. । उप. अर्थः ? =मूत्रपुरीषोत्सर्ग- इति

मस्करिः MW. च, अनुवात-सेवन- यद्वा प्रतिवात-सेवन- इति Bühler । j) संधिरार्थः । उस. पूष. कस. ।
k) वैप १, परि. च द्र. । l) विप. ([अधमकुलोत्पन्ना-] स्त्री-) । कस. । m) तस. । n) पाठः ? (तु. C.) । o) वैप १ द. ।

p) विप. (पानीवत-) । तुस. । q) विप. ([अधोनाभि-प्रमाण-] पानीवत-) । प्रमाणेऽर्थे तद्धितस्य लुक् (पावा
५, २, ३७) । r) विप. । कस. उप. <नि/व्ये । अधोऽनि [हिघ.] इति पाठः ? यनि. घोषः । s) विप.

(मीहि-) । कस. >तुस. । t) विप. (खग-) । उस. पूष. कस. ।

अधो-मुख^a- -खः आमिष्ट २, ६, ७: १४; वैध ३, ६, ११; याशि १, २१; -खा: वैष्ट ५, ६: ३; गौपि १, ४, २.

अधोमुखी- -खी अप ५८^१, ४, ५.

अधो-मेखला^b- -लाम् वैश्रौ १, २; ७; ११.

अधो(धस्-अ)र^c- -रः या २, ११.

अधो-राम^d- -मः वाश्रौ ३, २, ६, ३४; आपमं २, १६, २; भाग्य २, ७: ९; हिष्ट २, ७, २^e; या १२, १३^f; -मम् बौश्रौ १०, ५७: १०; हिश्रौ ९, ८, ३१; -मौ शुप्रा ३, १५, १.

अधो-लोमन्^g- -म वैष्ट ५, ३: १६.

अधो-वायु-समुत्सर्ग^h- -र्गे कप्र १, २, १३.

अधो-वीतⁱ- -तम् बौध १, ५, ८.

अधो-वृत्^j- -तम् कप्र १, १, २.

अधो-वेदि^k- -दिम् वैष्ट १, ८: १२.

अधो(धस्-अ)इव^l- -इवम् काश्रौ २०, २, २.

अधम^m- पावा ४, ३, ८; पाउ ५, ५४; -मः बौश्रौ २९, ८: १३;

†ऋप्रा २, ४५; ४, ५७; -†मम् आपश्रौ ७, १८, १४; बौश्रौ ४, ६: ५९; ६०; माश्रौ १, २, २, २२ⁿ;

८, ४, १०; वाश्रौ १, २, ४, ५७; ६, ५, २३; वैश्रौ १०, १४: १७;

हिष्ट १, ९, १०; -मा: काश्रौसं ३०:३; -†मानि माश्रौ ३, १, २९; अप्राय ४, १.

अधम(म-ऋ)र्ण^o- -र्णः विध ६, २०; -र्णात् विध ६, १.

आधमर्ण्यं- -र्ण्यं पा ८, २, ६०; पावा २, ३, ७०.

अधम-शा(खा >)ख- (> खीय-पा.) पाग ४, २, १३८.

अधमा(म-अ)र्ध- > अधमार्ध- पा ४, ३, ५.

अधमे(म-ई)क्षण^p- -णे कप्र १, २, १३.

अधमो(म-उ)त्तम-वर्ग^q- -र्गेषु आज्यो ९, २.

अधर, रा^r- पाग ३, १, १२; -†रः माश्रौ; -†रम् आश्रौ; आपश्रौ

२०, २०, ७ⁿ; वाग्य ११, ७^o; या २, ११^f; -रयोः आपश्रौ;

-रा वैश्रौ; -रा: कौस्; -राणाम् कप्र १, ४, १; -रान् काश्रौ;

-राभ्यः आपमं १, १५, ३; -राम् वैश्रौ; -रायै बौग्य २, ८, ३६;

-†रे आश्रौ; -रेण पा ५, ३, ३५. आधर्यं- -र्यम् विध ८, ११.

अधर-कण्ठ^s- -ण्ठः शौच १, १९.

अधर-प्रवत्क^t- -स्केन कौस् ४४, ३२.

अधर-मूल^u- -लम् काश्रौ २, ७, २१.

†अधर-लक्ष्मन्^v- -क्ष्माणम् भाशि १२०.

अधर-लोमन्^w- -मा आपश्रौ ९, ११, २३; आमिष्ट ३, ४, १: २३; बौपि ३, ३, १; हिपि २: १; २३: २६.

†अधरा(र-अ)च्, ञ्च्^x- -राक् शाश्रौ १२, २०, २; २३, १^y; आपश्रौ १२, ९, ८; बौश्रौ ७, ६: ९; १२, ११: ७; माश्रौ २, ३, ४, ४; हिश्रौ ८, ३, ७; १३, ५, ३५; वैताश्रौ ३२, २२; -राचः कौस् ४९, ६; -राञ्चः कौस् ४८, ६; अत्र ९, २.

†अधरात् शाश्रौ ४, २, ९; कौग्य ५, ८, ५; कौस् ७२, ३; अप २२, १, ११; अत्र ६, ४०; पा ५, ३, ३४^z.

?अधरादीन्^{aa} अप ७२, ६, ५.

√अधराय पा ३, १, १२.

अधरा(र-अ)रणि^{ab}- -णिम् शाश्रौ १६, १६, १; काश्रौ ५, १, २४; आपश्रौ ७, १२, १३; बौश्रौ २०, २७: १०; २७, ७: ४; माश्रौ ७, ९, १३; माश्रौ १, ५, ३, १; ७, १, ४०; वाश्रौ १, ६, ४, ८; वैश्रौ १, १०: ८; ८, ५: १३; हिश्रौ ४, ३, ९; वैताश्रौ ३८, १४; कौस् ६९, १८.

अधर-कर्मणि घञ् प्र.।

a) विप.। बस.। b) नाप.। मलो. कस.। c) =अधर-। विप.। उस. उप. √ ऋ + कर्तरि अच् प्र. (वैतु. स्क. पक्षे मत्त्वर्थे: प्र.)। d) वैप १, परि. च द्र.। e) अधो^o इति पाठः? यनि. शोधः (तु. सपा. आपमं २, १६, २)। f) षस.। पूष. कस. =अपानवायु-। g) नाप. (Lनाभेरधोऽवसक्त-] यज्ञोपवीत-).। कस.। h) विप. (तन्तु-त्रय-).। i) अस्.। j) वैप १, परि. च द्र.। पाउ. तु < √ अच् > ध्। k) नाप.। बस. वा सस. पूर्वनिपातः (तु. पाका ८, २, ६०) वेति। l) षस.। m) कस. पूष. द्वस.। n) पाभे. वैप १ परि. अधरम् ऋ १०, १५२, ४ टि. द्र.। o) अधरं करोमि इति पाठस्य स्थाने सपा. शाश्रौ ४, २१, २ आग्य १, २४, ८ अधितिष्ठामि इति, पाग्य १, ३, ८ माग्य १, ९, ८ अभितिष्ठामि इति च पाभे.। p) नाप.। कस.। q) नाप. (खण्ड-).। कस. उप. प्र √ अच् + कर्मणि घञ् प्र.। r) पाठः? अधर-हीन->-नम् इति शोधः।

अधरे-द्युसः (ः) ^a पा, पावा ५, ३, २२.
 अधरो(र-उ)त्तर- पा २, ४, १२;
 -रयोः बौशु ५ : १८.
 अधरो(र-उ)त्पन्न^b - न्नात् वैध
 ३, ११, २.
 अधरो (L, रौ) र-ओ)ष्ठ^c - छम्
 शौच १, २५; -ष्ठे शांश्रौ १,
 १०, २; बौश्रौ ३, २८ : २४.
 अ-घातु^d - तुः पा १, २, ४५; -तोः
 पा ६, ४, १४; ७, १, ७०; पावा
 ४, १, ६; ७, १, ७०.
 अधात्व(तु-अ)धिकार^e - रात् पावा
 ७, १, ८४.
 अ-धान्य-त्व- -त्वात् पावा ५, २, ४.
 ?अधाम वैताश्रौ ३६, ३०.
 ?अधामः वाधूश्रौ ४, ७५ : १३.
 ?अधायमुतेसुमुदस्य जैगृ २, ७, ५.
 अ-धारण^f - णे आमिगृ २, ७, ४ : ५;
 बौगृ ४, ११, १.
 अ-धारा-ग्रह^g - हाः आपश्रौ १२,
 १८, ११; -हाणाम् वैश्रौ १५,
 २१ : १०.
 अ-धार्मिक^h - कः अप ७०, १, ९; -कैः
 विध ६३, ३.
 अधार्मिक-जना(न-आ)कीर्णⁱ - णे
 विध ७१, ६५.
 ?अधाह्यः अप ४८, ७१.
 अधि^j ऋश्रौ २, १६, २; ३, १२, २२;
 ४, ६, ३; ९, ४; १२, २; १२, ६, ७;
 ऋश्रौ ४, १४, ३६; ५, ९,
 १२; १३, ६; १४, १६, १०; १५,

१५, १३¹; १६, ११, १२; १८,
 २२, ७; काश्रौ ३, ६, ११¹; ७,
 २, ३०; १७, ६, ५; ७; ८, २५, ९,
 १६; १०, १८; १२, २३; १८,
 २, १; ४, २; ५, १७^k; २५, ७,
 ४०¹; ऋश्रौ १, ४, १५; ७,
 ७; ४, ७, १; १२, ८; ५, २, ४²; ८,
 ५; ९, ८; १०, १²; १३, ४; ६,
 १, ३; २०, २; ३०, २०; ७, ५,
 १; २१, ६¹; ८, ६, २३¹; ९, ९,
 ११¹; ११, ३, १¹; ५, ३²; ११, ३,
 ७, १६; १७, २; ११¹, २०, ११;
 २१, ४; १६, ३, ४; ६, ६; ९, ११;
 २९, १; २; १७, ८, ४¹; १८, १५,
 ५¹; २०, २०, २; १२, १६, ११;
 १७, ३; १२¹, १३, ११; १३;
 १४, ३; ऋश्रौ १, २; २१¹; १० :
 ८; २, १६ : २; १७ : २१; ३, ८ :
 १२; १२ : २७; ४, ५; १७^m; ५,
 १¹; ७ : १०; १६; ८ : ४; ६,
 १० : १६; १९ : २६¹; ८, १ :
 ४¹; ५ : १९; १६; १५; १०, ४ :
 १२; १३ : २३; २२ : २०; ३४ :
 १७; ४८ : २९; ५० : २५; १३,
 ७ : १७; १४, ४ : ३७¹; १७ : ५;
 १५; २५; १२ : ८¹; २८; २१ :
 १; ३; ६; ८; १०; १५; १८; २३;
 २३ : १; २४ : ३४; २८ : १५;
 १६, ३५ : १¹; १७, ४९; १०;
 १८, १६; ११; १३; १४; १७; २३;
 ३२ : १४¹; ३३; ६; ३८; १२¹; ४१;
 ३; १३¹; ४५; २८¹; ४६ :

१९¹; ५० : २७¹; २७, १० : ६;
 माश्रौ १, ४, १७; ७, ३; २०,
 १; ऋश्रौ ९, ४; १८, ४; ऋश्रौ ७, ४;
 १८, ७; ७, ४, १¹; ८, ८, ७;
 ९, १२, १२¹; ११, २१, १३; २२,
 ७; माश्रौ १, २, १, १९; ३६;
 ६, १०¹; ३, ५, १९; ४, १, १८;
 ३, १६¹; ५, २, १७¹; ६, ४, २४;
 ७, ३, २४; ४६; ४, ५; १¹; ७,
 १५¹; ८, १८; ८, २, १३; ३,
 ३०¹; ५, १८; २, २, १, १०; २१;
 २, १२; २१¹; ३, ६, १; १३; ५, ४,
 ११; ३३; ४, ४, १८; ५, १, ८,
 १३; २, १, १८; ११, २४;
 १५, २८; ६, १, १, २६; ३, २८;
 ५, ४¹; २, ५, ३१; ३३;
 वाधूश्रौ ३, १८ : ७; २४ :
 ४; ७; ९; १०; १२ : १०; ४,
 २९ : ८; ५९¹ : २; ४; ६० :
 १; ६; ६३ : ७; ७१ : ५; ८३ :
 १; ८६ : ६; १४; २२; ९४¹ :
 ९¹; १०३ : ९; ११६ : ३;
 वाश्रौ १, १, ४, ३१; २, ३, ५;
 ४, १; २०; ४, १, १८¹; २, ८;
 ५, २, १६; ५, ८¹; ६, २, ५; ४,
 ८; ७, २, २१; ४३¹; ४, ७९¹;
 २, १, १, २०; २, २३; ५, ४;
 २, १, २४; ४, १६; ३, २, ५,
 १५¹; ३, ४, ४; वैश्रौ १, ७ : ७¹;
 २, २ : २१; ८, १२ : ४-७; १२,
 २४ : ३; १४, ४ : १४; १५¹;
 १६, १२ : ३; २० : १३; १८,

a) वैप १, २५० f द्र. । b) विप. । पंस. । c) वैप १, परि. च द्र. । पात्रिकं पररूपं द्र. (पावा ६, १, ९४) । रो^o इति बौश्रौ. । d) तस. उप. पारिभाषिकम् । e) षस. । f) तस. । g) तस. उप. 'धारया गृह्यते' इति उस. । h) विप. । तुस. पूष. कस. । i) सप्तम्यर्थे वा पंचम्यर्थे वा कप्र. यथायर्थं द्र. (तु. वैप. १, परि. च) । j) भासुरे दधि इति पाठः ? ँरे अधि इति शोधः (तु. वैताश्रौ ३०, १२; ँरादधि इति BC. च) । k) अधिऽधि इति Web. । l) पाभे. वैप १, ८७६ C द्र. । m) अभीत्यर्थे द्वितीयायुक्तः कप्र. । n) सपा. तैत्रा १, ५, ५, २ आपश्रौ ८, ८, २१ द्विः इति पाभे. । o) सपा. तै ३, १, ४, १ पुरि इति पाभे. ।

१ : ३९; ४ : ८१; ७ : १४१;
 २० : १२१; हिश्रौ १, २, ५३; ५,
 २६; १३, ३, २; २६; ४१; ४,
 १६; ४, १, ६२१; ५, २, ४८;
 ३, ११; ६, २, १६; ३, १०१; ४,
 १०१; ८, ११; ७, ४, ११; ५,
 २३; ९, ४, ४९; १०, ५, ११;
 १११, १, ३०; ७२; ३, १५;
 ८, ३; ४; १४, ४, ४१; १६,
 ६, ३९; १७, ६, ३९; १८, ३, ३;
 २१, १, ७; जैश्रौ १७ : २; १८ :
 ७; १९ : २०; द्राश्रौ २, ३, १४;
 १२, २, ३२; १३, ४, ८१; लाश्रौ
 १, ७, १२; ४, ११, २; ५, ४,
 १५१; वैताश्रौ ५, ७; २९, ८१;
 ३०, १२; निस् २, ६ : ३७; ३,
 १३ : ४१; आपमं १, ६, ११;
 ६०; १७, १; ३; २, ११, ३३;
 १४, ३; २१, ३३; सु १५, ३;
 आश्र १, १५, ९; २०, १०; २,
 ९, ३१; ४, ३, २०१; कौश्र १, ८,
 १३१; पाश्र १, ८, ८; ११, ९;
 १८, २; २, २, १२; १६; ३, १,
 ६०; ६, २; आमिश्र १, १, २;
 ४; ४७; ४९; ५, ४; ५१; ११;
 २, १, ३ : ७; ३, ४, ३ : २;
 ५ : ८; ६, १ : १४१; ४ :
 ५; ६; ७, २ : ८; ४ : १४१;
 १६; १०, १ : १४१; आपश्र
 १६, १, ३; काश्र २५, ४७१; २७,
 ३; १११, ७; ११; ४४, ३;
 ४५, ७; वौश्र १, ५, १६; १२, १,
 ४; ५, २९; बौपि ११, ८;

१३; १३ : ६; १७ : २८;
 ३, ४, ३; ५, २; १०, २;
 भाश्र १, २५ : ३१; २, २६ :
 १४१; ३, ६ : २०; १९ : २; ३;
 माश्र १, १८, ६१; वाश्र २, ५;
 वैश्र १, १२ : ११; ७, १ : १६;
 १२ : ५; १०; १३; १११ १,
 ४, ८; ११, ११; १५, ६; २,
 ३, २; हिपि १० : १०१; गोश्र
 १, ४, २८; २, ८, ४१; ४, ६,
 ५१; १०, ६; गौपि १, ३, १३;
 २, ७, ३६१; जैश्र १, ८ : ४१;
 १२ : ६१; ८; १०; २४ : ७१;
 द्राश्र ४, १, १९१; १११ १,
 ९, १५; ३, २, १३; कौसू ३१,
 ८; ३५, २११; ३९, ३०;
 ४२, ११; ६८, २६१; ८१,
 ३०; ८९, ६१; १३३, ६१;
 अप्राश्र १, ३; २, ४१; ७; ४,
 १; ५, ११; ३; आपश्र २, १,
 १; बौध ४, १, २६; हिध १,
 ९, १; ऋश्र २, ९, ९४१; वृदे
 ५, १०८; शुश्र ३, २०७१; माअ
 १, ५३९१; १११ ७, ८; ५३;
 १२, १; १११ २ : ५९; ३;
 ५२; या १, ३; १५१; २,
 ५१; ९१; १४; ३, ४; १४,
 १०; १५; २७; ५, ५१; ७;
 १४१ : १६१; ७, २१; ९, १०१;
 १८; १९; १०, ७; ११, १७१;
 ३६१; ४१; १३, १०१; १४,
 १६१; ऋश्र २, ४७१; ४,
 ८४१; ११, ६१; १२, २०;

१४, ६४; १५, १७; १६,
 ५; १७, ६; शुश्र ६, ७; २४;
 तैश्र १, १७; १११ १, १, १२;
 २, १, ३; शौच ४, ५; पाश्र
 १, ४, ५८; २, १, ४०; अश्र-
 (धि-अ)धि आश्रौ २, ३, १५;
 काश्रौ २, ६, २५; ४, १४, १२;
 ८, २, १२; २१, ४, २१; २६,
 ३, ५; आपश्रौ ५, २६, ५१;
 १५, ७, ६; २१, १७, १२; भाश्रौ
 ११, ७, १५; माश्रौ २, ५, २, ९;
 ४, २, २०; ५, २, ४, १९; ३१;
 ६, १, ४, १०; वाश्रौ १,
 ६, ५, १३; ७, ३७; ७, ४, २०;
 ३, २, ७, ७८; ४, ५, ५; हिश्रौ
 १६, ६, १०; द्राश्रौ १३, ४, ७;
 लाश्रौ ५, ४, १४; काश्र २५, ९;
 ४५, ७; माश्र १, ९, १३; १७,
 ५; २, १, १०; १७, ४; कौसू
 २१, २३; ३४, १०; ७३, १२;
 अप्राश्र २, ५; पा ८, १, ७.
 अधि- -धिः पा, पावा १, ४,
 ९७; -धेः पा ६, २, १८८.
 अधि-क, का^h- -कः, -कम् आश्रौ;
 -क्या द्राश्रौ; -कस्य पावा ६,
 १, ९; -का लाश्रौ; -काः आश्रौ;
 -कान् आपश्रौ; -कानाम् अप;
 -कानि काश्रौ; -काम् वैश्रौ;
 -काय काश्रौसं; -के आश्रौ;
 -केन आपश्रु; -कैः मीसू १०, ४,
 ४; -कौ काश्रौ.
 आधिक्य- -क्यस्य पावा ५,
 २, ४५.

a) सपा. अधि [सप्त. युक्तः कप्र.], निधाय इति द्विपदपाठ-स्थाने आपश्रौ २१, १९, १८ बौश्रौ १६, २१ : ८;
 २२ : ७ भाश्रौ १, २४, ४ अधिनिधाय इति पाठे. । b) पाठे. वैप १ ८७८ p द्र. । c) सप्त. युक्तः कप्र.
 (तु. सस्थ. टि. ?वनायचक्रुः) । d) पाठः ? अपि इति शोधः (तु. सपा. शौ २०, १२७, १२; शाश्रौ १२, १५,
 ३ प्रभू. च) । e) पाठे. वैप १ परि. अभि तै १, २, ३, ३ टि. द्र. । f) अधिनिषं इति समस्तमिति या. ।
 g) उत्तरेण समस्तमिति पाका. शोधार्हा । h) वैप १ परि. द्र. ।

°अधिक- पावा २, १, ६०; ७, ३, ५६.

अधिक-ग्रहण^a- -णम् पावा १, १, २३.

अधिक-इय (त्रि-अ)क्षर^b- -रेषु ऋप्रा ५, ५३.

अधिक-स्व- -त्वात् पावा २, ३, ४६; ८, ३, ६५.

अधिक-लोप- -पः पावा २, २, २९; -पात् पावा ५, ४, ७३.

अधिक-वर्ण,र्णा^b- -र्णस्य विध ५, १९; -र्णाम् विध २२, ७४; -र्णेषु विध २२, २१.

अधिका(क-अ)क्षर,रा^b- -रा या ७, १३; -रेषु ऋप्रा १५, २५; १८, ५८.

अधिका(क-अ)गम^b- -मात् मीस् ७, ४, १३.

अधिका(क-अ)ङ्ग^b- -ङ्गः आमिष्ट ३, १०, १; ५; बौपि ३, ५, २; अप ६२, ३, २; ७२, ६, ३.

अधिकाङ्गी- -ङ्गीम् विध २४, १३; ६९, १७.

अधिका(क-अन्त>)न्ता^b- -न्ता पावा २, २, २९.

अधिका(क-अ)र्थ- -र्थम् पावा ५, २, ४६; ६, २, १३९; -र्थं मीस् ७, १, १६.

अधिकार्थ-वचन^a- -ने पा, पावा २, १, ३३.

अधिका(क-अ)र्ण^c- पा ६, २, ९१.

अधिको(क-उ)त्पत्ति- -त्तिः

मीस् १०, ३, १.

अधि-परि^d- -री पा १, ४, ९३.

अध्य(धि-अ)र्थ^a- -र्थे या ५, ५; पा ८, ३, ५१.

अध्यर्थ-ग्रहणा(ण-आ)नर्थक्य- -त्रयम् पावा ५, १, २८.

अध्यु(धि-उ)त्तरपद^e- -दात् पावा ५, ४, ७.

अध्यु(धि-उ)पसृष्ट^f- -ष्टम् पावा १, ४, १.

अधिकक्ष^g>अधिकक्ष^h- -क्ष्यान् बौश्री ११, ६; २६; १२, ७; ३७.

अधि-कचⁱ- -चाः अप ५२, ६, ४.

अधि,धी-क(र्ण)>र्णाⁱ- -र्णा ऋत ५, १, ३.

अधि-काम^k- -मम् भाश्री १, १५, १५.

अधि√कृ, ^kअधिकुरुते आपश्री १४, १२, ६; हिश्री ३, ४, ५३; शंघ १०; अधिकुर्वीत शाश्री १६, २०, ३.

अधि-करण^l- पाग ४, १, ४१; -णम् बौश्री २०, २; ३५; ३६;

२४, २; ३; कौसू ८, ५, ५४, २१; पा १, ४, ४५; पावा १, ४, १३;

-णस्य पावा १, ४, २३; -णात् पा ३, १, १०; -णानि बौश्री २४, २; १; ३; १२; १४;

-णे पा २, ३, ३६; ६४; ३, २, १५; ३, ९३; ४, ४१; ७६; पावा २, ३, २८;

३, २, ४८; ३, ९८; -णेन शाश्री १, १, ८; बौश्री २६, ३२; २;

-णेषु बौश्री २५, ३; ५; -णैः माय २, १, ९; १७, ३.

अधिकरणी- पा ४, १, ४१; -णीम् बौश्री ९, १; ५; १८; १०, १; १६.

अधिकरण-गति^m- -तिः पावा १, २, ६४.

अधिकरण-वाचिन्- -चिनः पा २, ३, ६८; -चिनां पा २, २, १३.

अधिकरण-विचालⁿ- -ले पा ५, ३, ४३.

अधिकरणा(ण-अ)पाय^o- -यात् द्राश्री १, ४, २.

अधिकरणा(ण-अ)भाव^p- -वात् पावा ५, २, ४५.

अधिकरणै(ण-ए)तावत्-त्व^q- -त्वे पा २, ४, १५.

अधि-कार^r- पाग ४, १, ४१; -रः काश्री; पा १, ३, ११; पावा १, ३, ११; ६, ४, १; ८, २, १३; -रात् काश्री; मीस् १०, ५, १५^m; -रे पावा २, ३, ३२; ४, १, ९०;

-रेण मीस् १०, ८, ५१.

°अधिकार- पावा २, २, २४; ६, १, ९२; ४, १९; १०१; ७, ३, १११; ८, ४, ३०.

अधिकारी- पा ४, १, ४१.

आधिकारिक,का^o- -कम् शाश्री ३, १९, ८; मीस् १, २, १६;

-काः शांष्ट ६, ४, ९.

अधिकार-परिमाण-ज्ञाना(न-अ)र्थ^p- -र्थम् पावा १, ३, ११.

- a) षस.। b) विप.। बस.। c) व्यप. (देश-विशेष-).। कस. ?। उप. =भभावशेष-। d) द्रस.। e) बस.। f) विप. (कर्मन्-).। वृस.। g) अस.। h) विप. (हस्तित्-).। तत्रभवीयः यत् प्र. उर्स. (पा ४, ३, ५४)। i) व्यप. (मह- [नक्षत्र-] संघ-विशेष-).। व्यु. ?। अधि + √कृ [दीप्तौ] > भावे कच-> बस. इति स्यात्। j) =अधिविहितकर्णी-। नाप.। बस.। k) पा १, ३, ३३ इत्यत्रायं परामृष्टः द्र.। l) नाप.। उप. अधिकरणे ह्युट् प्र.। m) =अधिविहितकर्णी-। नाप.। बस.। n) अविकारात् ° इति प्रयासं.। o) विप. तत्रभवीयष् ठञ् प्र. (पा ४, ३, ६७)। p) षस. > षस. > चस.।

अधिकार-परिमाणा(ण-अ) ज्ञान^०-नम् पावा १,३,११.
अधिकार-सामर्थ्य- -ध्यात् मीस् ३,७,५२.
अधिकारा(र-अ)न्त^०- -न्तम्, -न्तान् अत्र ११,३(२).
अधि-कारक^०- -काः अप ५८, १, १२.
अधि-कारिन्- -रिणः कप्र ३, ९, ८; हिध २, ४, ४१; -रिभिः अप ६४,२,६; -री आग्रि २, ५,११:१; कप्र ३, १,१२; विध ६४,४.
अधिकारि-त्व- -त्वात् मीस् ९, २,५६.
अधि-कृत,ता- -तः काश्रौ १, १, १२; लाश्रौ १०,४,६; निस् २, ४:९; २४; १०, ८:३४; मीस् ११, ३, ३६; -तस्य कौस् ८, ९; -ताः काश्रौ १४,१,२३; निस् २, १३:३५; ५, ११:१५; -तान् शंघ ३१३; -तानाम् मीस् १०, ८,३४; -ते निस् २, ४:२५; -तेभ्यः काश्रौ ५, ५, ३३.
अधिकृत-त्व- -त्वात् या ५,११.
अधिकृता(त-अ)धिदेवता^०- -ताभ्यः वैगृ २, १२:१.
अधि-कृत्य आपश्रौ; पा,पावा ४,३, ८७.
अधि/कृप्, अधिकृषति आपश्रौ १६, १९, ४; वैश्रौ १८, १६:१३; हिश्रौ ११,६,३४.

अधि-केराक^०- -काः अप ५२, ७,२.
अधि/क्रम्, अधिक्रमते वाधूश्रौ ३, १९:२६; अधिक्रमति वाधूश्रौ ३,३२:४; वैश्रौ १९, १:१; हिश्रौ १२,४,६.
अधि-क्रामत्- -मन् हिश्रौ ११, ७, १४.
अधि-चङ्क(म>)मा^०- -माम् अत्र ११,९; अप ३:४९.
अधि/क्री, अधिक्रीणामि कौस् ३३, ७^२फ.
अधि/क्षि(नित्रांस), ऋअधिक्षियन्ति आपश्रौ ११,९,१; हिश्रौ ७, ५, ३५.
अधि/क्षिप्, अत्रिक्षिपति कौस् ४४,१०.
अधि-क्षिप्त- -प्तः हिगृ १, १६, ३; ५; -प्तम् कौस् ४६,४७.
अधि/खन् अधिक्रानयेत् वाधूश्रौ ३, ६९:२४.
अधि/गच्छ, गम्, > जिगमिष^०, जिगांस^०, अधिगच्छति वाधूश्रौ ३, ६९:३०; अधिगच्छामि अप ४, १,१७; अधिगच्छ जैगृ १, १२:२१फ; अध्यगच्छन् वाधूश्रौ ३, १७:२; ४,३०:१३; अधिगच्छेन् आपश्रौ १६, २०, ११!; अधिगच्छेयुः दाश्रौ ११,३,२१; अधिगच्छेः शाश्रौ १५,२२,१.
ऋअधिजगतुः दाश्रौ ११,२,५; लाश्रौ ४, २, ४; अध्यगमम् बौश्रौ १८,१३:१४.
अधि-ग- -गाः अप १, ३१, ८;

-गानि वैगृ ३,२१:७.
अधि-गच्छान- -नः बौध २,९,९.
अधि-गत,ता- -तः बौध १, १, ६; -तम् आपश्रौ; -ता वैश्रौ १२, १४:७; -तानाम् मागृ; -ताम् आपश्रौ १०, १९, ५; -तायाम् आपश्रौ; -ते वेज्यो २७!.
अधि-गन्तृ- -न्तः जैगृ १, १२, २१फ; -न्तुः गौध १०, ३७; -न्त्रे वाध ३,१३.
अधि-गम^०- -मे वैश्रौ २१, ३:११;
अधि-गम्य हिश्रौ १०,३,१०; गौध ९,१; १०,३५; वृदे ३,१४२.
अधि-जिगमिषत्- -वन् आगृ ३,७, ९.
अधि-जिगांसमान- -नः आपध १, १०,१३; हिध १,३,४२; -नस्य आपध १, १०, १७; हिध १, ३,४४.
अधि/गा^०, अधिगुः माश्रौ २, ५, ४,२४^०.
अधि-चङ्कमा- अधि/कम् द्र.
अधि/चर्, अधिचरति हिश्रौ ७, ४, ५७.
अधि-चरिष्यत्- -ष्यन् कौस् ६८, १६.
अधि-चात्वाल्- -लम् माश्रौ २,३, २, २१.
अधि-ज्य^०- -ज्यम् बौश्रौ १०, २३:२५; १२, १२:८; १३:२३; १८, १७:२५; २२, ५:९; माश्रौ ५, १,९, ३२; वैश्रौ १८,

- a) षस. > षम. । b) विप. (मन्त्र- छन्दम्-) । बस. । c) विप. । उप. षुल् प्र. । d) कस. । e) विप. (ग्रह- लक्षण-) । बस. । f) वैप १, परि. च द्र. । g) पाप्र. (२, ४, ४७) < √इ । h) पाप्र. (२, ४, ४८; ६, ४, १६) < √इ । अध्ययने । i) च्छत् इति पाठः ? यनि. शोधः । j) अल्प- गते इति कात्. । k) भाप. । l) पा १,२,१; २,४, ४९ पावा १, १, ५९; २,४, ४९ इत्यत्रास्य परामृष्टः द्र. । m) पाभे. वैप १ परि. अभिगुः मै ४,९,१२ टि. द्र. । n) अत. । o) विप. (धनुस्-) । बस. ।

१४ : ३९; आगृ ४, २, २२;
 कौस् ४०, १५.
 अधिज्य-धन्वन्^a - न्वा कौस् ७५,
 १८; -न्वानः शाश्रौ १४, २२,
 २०.
 अधि-त्य(क>)का- पा ५, २, ३४;
 पावा ७, ३, ४५.
 †अधि-दधान- अधि√धा द.
 अधि√दिव् > अधि-देवन^b - नम्
 आपश्रौ ५, १९, २; १८, १८, १६;
 बौश्रौ २, ८ : २४; १२, १५ : १३;
 भाश्रौ ५, १२, ५; वाश्रौ ३, ३, ३,
 २३; वैश्रौ १, १४ : १९; हिश्रौ ३,
 ५, ३; १३, ६, २८; आपगृ १८, १;
 भागृ २, ७ : ३; हिगृ २, ७, २;
 आपध २, २५, १२; हिध १, ५,
 १९१; -नाय माश्रौ १, ५, ५, ६;
 -ने आपश्रौ ५, १९, २; बौश्रौ
 १४, १७ : ११; १४^c; २३, ७ :
 १८; २४, ८ : २; माश्रौ १, ५,
 ५, ७; ९.
 अधि√दिग्, †अधि(दिदिष्ट) ऋप्रा
 १६, ४८; १८, ५३; ५७; उस्
 ३, ३.
 †अधि-देव^d (> आधिदैविक- पा.
 पावा.) पाग ७, ३, २०; पावाग
 ४, ३, ६०.
 †अधि-देव^e - वेभ्यः वैगृ ४, १४ : ९.
 अधि-देवत^f - तम् वाधूश्रौ ४, २० :
 १; ४१ : ३; ७८ : १.
 अधि-देवता^g - ता अप १८, २, ४;

-ताः वैगृ १, २ : ८.
 अधि-दैव^h - वम् शांगृ १, २, ५.
 अधि-दैवतⁱ - तम् शाश्रौ १६, २०,
 २; २१, २; २३, ४; २४-३०,
 २; शुअ १, ५६; २५६; ४५३;
 या ३, १२; १०, २६; ११, ४;
 १२, ३७; ३८; १३, ११; १४,
 १२-१६; १८; १९; २१; २३-२५;
 २७.
 †अधि-द्यौ^j - द्यौः आपश्रौ १७, १,
 १५; बौश्रौ १०, ३९ : २२;
 माश्रौ ६, २, १२; वाश्रौ २, २,
 २, ६; वैश्रौ १९, ३ : ६; हिश्रौ
 १२, १, ११.
 अधि√द्रु, अधिद्रवति बौश्रौ १०,
 २७ : १४; २८ : ५; ३७ : १४;
 ३९ : ९; ४१ : ८; ४४ : ९; ५२ :
 ५; अधिद्रवतः बौश्रौ ७, १३ :
 २४; १५, २२ : ३; अधिद्रवन्ति
 बौश्रौ १५, २१ : ३.
 अधि-द्रवण^k - णम् बौश्रौ १४,
 २० : २८; १९, २ : १८; २२,
 ४ : ६; २३, १५ : १०; १४;
 बौषि १, १५ : ३६.
 अधि-द्रुत्य बौश्रौ १०, २४ : १४.
 अधि√धा, अधिदधाति कौस् २, ७;
 ४०, ३; ६२, २२; अधि(अधत्तम्)
 ऋप्रा २, ५०.
 †अधि - अधित ऋप्रा २, ४४;
 अधिधाः मागृ १, ५, ५†.
 †अधि-दधान- -ने या ८, ११.

†अधि-धीयमा(न>)ना- ना अत्र
 १२, ५(४).
 अधि√नग् >, अधिनाशयाम अप
 १, ५१, ६.
 अधिनामेन^l शाश्रौ ४, २०, १.
 अधि-नितोद^m - दम् काश्रौ १६,
 ८, ६.
 अधि-नि√घा, अधिनिदधाति आपश्रौ
 १, ३, १३; बौश्रौ ६, २५ : १८;
 वैश्रौ ३, ७ : २; भाश्रौ १०, ३,
 १३.
 अधिनि-धा(न>)नीⁿ - नी आपश्रौ
 १, ५, ५; भाश्रौ १, ५, १.
 अधिनि-धाव^o आपश्रौ २१, १९, १८;
 बौश्रौ १६, २१ : ८; २२ : ७;
 भाश्रौ १, २४, ४.
 अधि-निर्√णि(<नि)ज् > अधि-
 निर्-णेजन- > जनीय- -यम्
 माश्रौ ४, २, ३; ४, ३; १४; -ये
 माश्रौ ४, ३, ३६; ३९.
 अधि-नि√वप्, †अधिनिवपन्ते
 वाश्रौ ३, २, १, ६†; अधिनिवपेत्
 हिपि १३ : ११^o; १२.
 अधि-नि√व(<स)द् > अधिनि-
 वण- -णः या १३, १०; ११.
 अधि-न्य(नि√अ)स् (क्षेपणे), अधि-
 न्यस्यति हिश्रौ ११, ६, १०.
 अधि-प- अधि√पा (रक्षणे) द.
 अधि-पण^p - णम् हिश्रौ १३, ६,
 ३०.
 अधि-पति^q - पाग ५, १, १२४;

a) विप. । वम. । b) वैप १, परि. च द. । c) अस. । d) प्रास. । e) गस.
 उप. भवि करणे वा ह्युट् प्र. । f) पाठः? (√अस् [भुवि] >) असि, अना (न्-आ) मय-
 > -येन इति द्वि-पदः शोधः (वैतु. C. अभिमानेन इति शोध इति ?) । g) अस. । वा. क्रिवि. । उप.
 = गर्त- । h) नाप. (ऋच्-) । गस. उप. करणे ह्युट् प्र. । i) पाभे. पृ ११४ a द. ।
 j) पाठः? हुत्वाधि^r इत्यत्र हुत्वा वि^o इति संशोध्य वि-नि √वप् > विनिवपन्ते इति स्यात् ।
 प्रकृते च स्थले अयम् इति? अर्य- > -र्यम् [अग्नि देवम्] इति शोधः । k) अस. ।
 वा. क्रिवि. ।

-तयः बौश्री; पाठ १, ५, १०^०;
 -तये आपश्रौ १४, २५, १११[†];
 - \ddot{a} तिः आश्रौ ४, १२, २^b; शाश्रौ
 ६, १३, २^c; आपमं २, १७, १४^d;
 -तिम् आपश्रौ; या १२, १८;
 - \ddot{a} ती शाश्रौ ६, ३, १-७; -तीन्
 शाश्रौ; -०ते शाश्रौ ४, १०,
 १^e; -तेः अप ७०^३, ३२, २४.
 \ddot{a} अधिपत्नी^f - स्त्री बौश्री १०,
 ४९ : ११; वाश्रौ २, १, ८, १;
 आपमं २, १७, १८; -स्त्रीः वैश्री
 १८, १६ : ५७; हिश्रौ ११, ८,
 ११; -स्त्रीम् आपश्रौ १०, ६, ५.
 अधिपत्य- पा ५, १, १२४; -त्यम्
 शाश्रौ; या १४, १७; -त्यानि
 काठ २५, १५; - \ddot{a} त्याय बौश्री;
 -त्ये^g आश्रौ; - \ddot{a} त्येन आठ २,
 ६, ३.
 अधिपत्य-काम- -मः
 आश्रौ ९, ५, ३; ९, १.
 \ddot{a} अधिपत्या (ति-आ) सन्दी^h-
 -न्दी आपमं २, ९, ९ⁱ?; भाठ २,
 २३ : ७.
 अधिपतित^j - तम् अप १, ३२,
 ५.
 अधिपतेत् वैश्री २०, १९ : ४^k;
 आम्रिठ २, ५, २ : २; बौश्र ३,
 ६, १.
 अधि-परी(रि) $\sqrt{\text{इ}}$ > अधिपरी(रि-इ)
 त्य या १४, ७.
 अधि $\sqrt{\text{पा}}$ (रक्षणे) > अधि-प^l- -पः

शाश्रौ १६, १, १४; -पस्य अप
 ४०, ३, ७; -पाः बृदे ४, ४१.
 \ddot{a} अधि-पा^m - पाः आपश्रौ ६, १८,
 ३; ७, २३, ६; हिश्रौ ६, ६, १७;
 वैताश्रौ १४, १; आम्रिठ २, ७,
 ३ : १३; ३, १०, ३ : २१.
 अधि-पाशⁿ - शान् कौसू ४९, १९;
 २१.
 अधि-पुरुष^o - वस् वाधुश्री ४, २० :
 १; ४१ : ३; ७८ : १.
 अधि-पुरुष^p > ^qव-ज्ञान^r - नम्
 मौसू ६, २, १७.
 अधि-पूत-भूत^s - तम् काश्रौ १०,
 ५, १.
 अधि $\sqrt{\text{पृष्}}$, अधिपृणक्ति बौश्री १,
 ९ : १३; १० : ४; ५, १ : २४;
 २५; २७; ३०; ११ : १८; १३,
 २५ : १७; ३३ : १२.
 अधि $\sqrt{\text{पृञ्ज}}$, अधिपृञ्ज्यात् बौश्री
 २६, ५ : १२.
 अधि-पृञ्जन- -नात् बौश्री २६, ६ :
 ९.
 अधि-बाल- -ले दंवि २, ९.
 अधि-ब्रह्मचर्य^t - र्यम् बौश्र ३, २,
 ६२.
 अधि $\sqrt{\text{ब्रू}}$, अधिब्रवत् या १४, २६[†];
 अधिब्रुवन् आपश्रौ १४, २७,
 ७ⁿ; हिश्रौ १५, ७, ८ⁿ;
 अधिब्रवन् बौश्री १८, १० : १९;
 १७ : १९; अधिब्रवीत् कौसू
 ८२, १३; अधिब्रुवन्तु आपश्रौ

८, १५, १७; \ddot{a} अधिब्रूहि वैताश्रौ
 ६, ७; अप ३२, १, १४; अत्र ८,
 २; अधि...ब्रूहि बौश्री १५-
 २ : ७.
 अधि $\sqrt{\text{भू}}$ > अधि-बुभूषु- -बुः
 आश्रौ ९, ५, ११.
 अधि-भूत^u - (> अधिभौतिक- पा.)
 पाठ ७, ३, २०; पावाग ४, ३,
 ६०.
 अधि-मन्त्र^v - -न्त्रम् निसू ४, ९ : १७.
 अधि $\sqrt{\text{मन्थ}}$, अधिमन्थति माश्रौ
 १, ५, ३, ३; ७, १, ४३.
 अधि-मन्थन^w - -नः आपश्रौ ७, ३,
 ३; -नम् आपश्रौ ७, १२, १२;
 बौश्री ४, ५ : ७; २३, १ : ४०;
 २७, ११ : ७; माश्रौ १, ७, १,
 ३९; वाश्रौ १, ६, ४, ७; -ने
 बौश्री २४, ३५ : १.
 अधिमन्थन-शकल^x - -लम्
 भाश्रौ ७, ९, १२; वैश्री १०,
 २ : ९; हिश्रौ ४, ३, ७.
 अधि-मन्थितव्य- -व्यः भाश्रौ ९,
 १३, ८; हिश्रौ १५, ३, ११^३.
 अधि-मास^y - -सः विध २१, २१;
 -से बौश्र २, १०, ८.
 अधिमास-क- -कौ वेज्यो ३७.
 अधि-यज्ञ^z - -ज्ञम् कौश्र १, ८, ११;
 शांठ १, २, ५; २, १५, ३; पाठ
 १, ३, ३०; गोश्र ४, १०, २२;
 द्राठ १, १, २४; या ११, ४; शुश्र
 १, ५६; ४५३.

a) पाभे. वैप १ परि. अधिपतयः तै ३, ४, ५, १ टि. द्र. । b) पाभे. वैप १ परि. अधिपतिः तै ४, ४, १२, १ टि. द्र. । c) पाभे. वैप १ परि. अध्वपते टि. द्र. । d) पाभे. वैप १ परि. अधिपतिः तै ५, ५, १०, १ टि. द्र. । e) पाभे. वैप १ परि. अधिपतिः शौ ५, २४, १; ७ टि. द्र. । f) वैप १, परि. च द्र. । g) पाभे. वैप १ परि. अधिपत्ये मै ३, १६, ४ टि. द्र. । h) षस. । i) ^qपल्न्यास^o इति पाठः? यनि. शोधः (तु. सपा. भाठ.) । j) पाठः? अति^o इति शोधः । k) प्रास. । l) अस. वा. क्वि. । m) अस. उप. समासान्तषु टच् प्र. (पा ५, ४, १११) । वा. क्वि. । n) पाभे. वैप १ परि. अधिब्रुवन् तै ४, ६, ३, १ टि. द्र. । o) नाप. । करणे अधिकरणे च कृत् । p) कस. । q) नाप. (मल-मास-) । प्रास. ।

अधियज्ञा(ज्ञ-अ)नुवादि(रु >)नी^०-
नी शुभ्र १, ४५४.
अधि-यत्न^०- -लेन नाशि १, ४, ७.
अधि-रथ^०- -थम् कौट १, ८, ३६;
शांठ १, १४, १६; पाण्ड १, ८,
१८; वाथ १, ३६१; हिध २, ३,
११०.
*अधि-राज^०- -जः आश्रौ ८, १४, ४१;
या ८, २१; -जम् हिश्रौ २१, १,
२; -जाय बौश्रौ १३, २८ : ५;
८; १७; माश्रौ ५, १, १०, २४.
*अधि-राजन्^०- -जा भाण्ड २, ३२ :
१७; -जानम् माश्रौ ५, १, १०,
२३.
अधि-राज्य^०- > °ज्या(ज्य-आ)सि^१-
-सये अप ११, २, २.
अधि/रुह, *अधिरोहति शाश्रौ;
अधिरोहन्ति बौश्रौ; अधिरोहामि
द्राश्रौ १०, ४, ९; लाश्रौ ३, १२,
८; *अधिरोह आप्तम; आमिण्ड
३, ६, ३ : २६; अधिरोहेत्
बौश्रौ; अधि...रुहेम द्राश्रौ
१५, ४, ६; लाश्रौ ५, १२, १३;
अधि...रुहेम बौश्रौ ६, ५ : ६.
अध्यक्षत् वंताश्रौ १४, १; क्रौस्
२, ७; अधि...अरुहत् वाधूश्रौ
४, ९४^१ : १०.

अधिरोपयति भाण्ड २, ३ : १३.
अधिरोहय भाशि १२०.
अधि-रुह आप्तश्रौ १७, १५, १.
अधि-रुह- -रुम् बौध १, ६, १४.
अधि-रोह- -हेण वैश्रौ १७, १५ : २.
अधि-रोहण- > णा(ण-अ)स्त-
गमन^०- -ने अप ६५, १, ९.
?अ(धि >)धी- (रोह >)लोघ, ह-
अधीलोघ-क (र्य) णा, णी^०-
-णया^१ हिश्रौ ९, ७, १५; -णीं
माश्रौ १०, १४, १९; -ण्या^१
आप्तश्रौ १०, २२, ६.
अधीलो(ह >)हा-क(र्य >)णीं^१
-णीं काश्रौ २२, ११, २५^१.
अधि-लोक^०- -कम् पाण्ड ३, ३, ५^१.
?अधि लोक-क(र्य >)णीं^१- -णया^१
वैश्रौ १७, २ : १.
*अधि/वच्, अधिवोच ऋप्रा ८,
३४; अधि...वोचः बौश्रौ ७, ५ :
१९; अधिवोचत > ता तैप्रा ३,
१२; अधि(वोचत) ऋप्रा ७, ३७.
अधि-वक्तृ- -क्ता ऋप्रा २, ४६^१.
अ(धि >)धी-वा(क्य >)क्या^१-
-क्याम् बौश्रौ १८, २४ : २०.
अधि/वद्, अधिवदते बौश्रौ ७, ७ :
६; १९; आमिण्ड १, ६, २ : ५;
अधिवदति हिश्रौ १४, १, २६.

अधि/वप्, अधिवपते बौश्रौ १,
७ : १०^१; अधिवपति आप्तश्रौ
१, २१, ५; बौश्रौ १, ७ : ८;
माश्रौ १, २३, ४; माश्रौ १, २,
२, २८; वाश्रौ १, २, ४, ६४;
२, १, ४, २५; वैश्रौ ४, ८ : ७;
हिश्रौ १, ५, ८३; *अधिवपामि
आप्तश्रौ १, २१, ५; काश्रौ सं ४ :
६; बौश्रौ १, ७ : ९; माश्रौ १,
२३, ४.
अधि-वपन- -नात् आप्तश्रौ २४,
३, २०; बौश्रौ १, ७ : १७;
५, १ : १७; ११ : १४; १२,
१ : ६; १३, २५ : १४; २८ :
१०; २९ : ७; ३३ : ११; ४१ :
१०; २०, ६ : २८; माश्रौ १, ७,
१, १७; १८; हिश्रौ ३, ८, ६३;
-ने बौश्रौ ३, २४ : ६.
अधु(धि-उ)स- -सानि बौश्रौ २२,
१६ : ५.
अधु(धि-उ)प्य बौश्रौ ५, १ : १७.
अधि-वर्च^१- -चम् गोण्ड १, ४, १०.
अधि-वर्तन-, °वर्त्य अधि/वृत् द.
अधि/वस्(आच्छादने)^१, अधिवास-
यति बौश्रौ १, ८ : १७; वैश्रौ ४,
१० : १३; अधिवासयेत् अप
१९^२, ३, १.

a) उप. । b) प्रास. । अधिपत्येन इति BSS. । c) विप. (L*वोद्-] संख्या-संकेतित-गो-वृष-) ।
'(धुर्यः सन्) अधिगतः रथम्' इति प्रास. । d) पामे. पृ ८८७ द. । e) वैप १, परि. च द. । f) पामे. वैप १
परि. अधिराजः टि. द. । g) टवः वैकरिक्त्वम् उस्. (पा ५, ४, ९१) । h) प्रास. । i) वस. । j) पामे. वैप १
परि. अधिरोहय तै ४, २, ५, ३ टि. द. । k) दस. । l) सपा. अधिलोक्कर्णया <> अधिलोक्कर्ण्या <> अधिलोक्कर्ण्या
इति पामे. । m) विप. (सोमक्रयणी-] गो-) । वस. पूष. दीर्घः (पा ६, ३, ११५) । विशेषः वैप १ द. । n) वैतु.
?MW., विद्याधरस्तु शुण्ठाधी (पीतमुखी वेष्टितमुखी वा पीतपुच्छी वा), लोहाकर्णी (लोहितकर्णी) इति द्विपदी
व्याचक्षाणश्चिन्त्यः । o) अस. वा. क्रिवि. । p) पामे. वैप १ परि. अभि तै ४, ३, ११, ४ टि. द. । q) विप.
(गो-) । वस. । पूष. अर्थः ? । = चक्षुषोः] उपरि लम्बमान- इति C LZDMG ७२, ४ । r) भावे ण्यच् प्र. (तु. वैप १
अनु-वाक्या- टि.) । s) °वदते इति पाठः ? यनि. शोधः (तु. संस्कृतः टि. सा तै पृ ९५] अधिवपति इति
पामे. च । t) अस. उप. (= उच्चार-प्रदेश-] तु. पा ६, १, १४८ = वर्वस्क- इति) अदन्तं प्राति. । थ) पा १, ४,
४८ इत्यत्राऽयं परामृष्टः द. ।

अधि(धी)-वास^a- -सः काश्रौ २,७, १; आपश्रौ १३, ६, ११†; माश्रौ ५,२,१०,१०; वाश्रौ ३,२, ५,१६; हिश्रौ ९,२,१६; १०,४, ३६; -सम् शाश्रौ १६,३,२५; २६†; काश्रौ १५, ५, १३; ७, २; बौश्रौ १२, १४: १८; १५, २८: २३; २५; शुप्रा ३,९७; ५,२३†; तैप्रा ३,७†; शुअ १, ६२६†; -सेन शाश्रौ १६, ३, ३४; १३,८; काश्रौ २०,६,१५.

अधि/वह

अधु(धि-उ)ह काश्रौ ३,२,२५.

अधु(धि-ऊ)ढ- -ढः वाधूश्रौ ४, ११७: ५; -ढम् या ४,१६.

अधि-वि/चि > अधि-वि-चयन-

-नस्य माश्रौ २, २,३,३८.

अधि-वि/चृत् > अधि-वि-चर्तन-

-नम् आपमं १,१७,१०^b.

अधि/विद् (ज्ञाने) अधिवेत्ति वृदे

२,३०.

अधि/विद् (लाभे), अधिविन्देत शंघ

८२.

अधि-वेदन^c->आधिवेदनिक^d-
-कम् विध १७,१८.

अधि-वि-पर्य(रि/अ)स् (क्षेपणे),

अधिविपर्यस्यति माश्रौ २,५, १,१५.

अधि-विवाह^e- -हम् कौश्र १,८,

११; शाश्र २,१५, ३; पाश्र १, ३,३०.

अधि-वि/श्रि, अधिविश्रयस् कागृ

२४,११†.

अधि-वृक्ष-सूर्य^f- -र्यम् वाघ १२,

४३; -र्यात् वाश्रौ ३,२,२,३५;

-र्ये आपश्रौ १, ७, २; ५, ४,

१२; ६, १, २; १०, १६, १६;

२१, १२, ८; १०; बौश्रौ २,

१३: १; १६, ८: ८^g; ९; माश्रौ

१, ७, १; ५, ३, १; १०, ११, ४;

८; वाधूश्रौ ३, १८: १; ७०: १;

वैश्रौ १, ४: १७; २, १: २; ३;

३, ६: १; १२, १२: १४; २०,

२२: ५; हिश्रौ २, ७, २; ३, २,

३५; ७, ३; ७, १, ६१; १४, १,

९; १६, ५, ४; कागृ २७, ३.

अधिवृक्षसूर्यो(र्य-उ)पस्थायिन्^h-

-यो गौघ ५, ४१.

अधि/वृत्, अधिवर्तयति आपश्रौ १,

१९, ६; बौश्रौ १, ८: ८; २८,

४: १४; माश्रौ १, २१,

४; २४, ४; ६, १६, ८; २१;

वाश्रौ १, ३, १, ४; वैश्रौ ४, ६:

११; ८: ४; ९: ७; हिश्रौ १,

५, ४५; ७९; अधिवर्तयेत् बौश्रौ

२०, ८: १८.

अधि-वर्तन- -नात् आपश्रौ १, २१, ३

अधि-वर्त्य हिश्रौ २, ७, ११.

अधि/वृष्ट, अध्यवर्धत सु ३०, ७.

?अधिशाययतिⁱ निसू ५, १०: १०.?अधिशाययन्तः^j निसू ५, १०: १४.अधि-शिरस्^k- -रः कौसू २५, ३७;

२७, १; ३१, २; ३२, २८; ३४, १.

अधि/शी^l, अधिशयीत आश्रौ ३,

१४, २०.

?अधिशीयाम^m निसू ५, १०: १३.अधि/श्रिⁿ, अधिश्रयति शाश्रौ;

आपश्रौ १२, ४, ९^k; अधिश्रयन्ति

काश्रौ २५, ७, १२^l; हिश्र १, २१,

६; †अधिश्रय आपश्रौ;

अधिश्रयीत भाग ३, १२: १०;

अधिश्रयेत् आश्रौ.

अधि-श्रयण- -णम् काश्रौ; -णात्

माश्रौ ६, १४, १७, ७, ४^m; -णे

बौश्रौ २०, ८: २७.

अधि-श्रयण-काल- -ले आपश्रौ

८, १०, ३; १३, १९; १२, ४,

१०; २४, ३, २७; बौश्रौ २८,

४: ३; हिश्रौ ३, ८, ६६.

अधि-श्रयण-पर्यगिनकरणा (ण-अ)

भिघारणो(ण-उ)द्ववासना(न-अ)

लंकरणो(ण-उ)स्पवनⁿ- -नैः

कौसू ६, ३३.

अधि-श्रयण-प्रतिषेचन^o- -ने

वैश्रौ २, ९: ४.

अधि-श्रयण-मन्त्र^p- -न्त्रः बौश्रौ

२०, ४: १०; -न्त्रम् माश्रौ ८, ५,

१६; -न्त्रेण आपश्रौ ८, १३,

१९; १२, ४, १०; २४, ३, २७;

माश्रौ ५, १८, १४; हिश्रौ ३,

८, ५९; ५, ४, २३; ८, १, ५४.

अधि-श्रयण-वर्जम् आपश्रौ ७,

८, ८.

a) वैप १, परि. च द्र. । b) पाभे. वैप १ परि. अधिविकर्तनम् ऋ १०, ८५, ३५ टि. द्र. । c) भाप. (सत्यां पत्याम् अन्यया विवाह-). d) विप. (स्त्री-धन-). ततआगतीयष् ठक् प्र. (पा ४, ३, ७५) । e) अस. । f) नाप. (सायंकाल-). बस. पूष. अस. वा. किवि. । g) विप. । उस. । h) पाठः? यथाक्रमम् (अति/शिष् > शेषि >) अतिशेषयति, अतिशेषयन्तः, अतिशेषयाम इति च शोधः (उ. [अन्तिभे पदे] संस्कृतः टि.) । i) पा १, ४, ४६ इत्यत्राऽयं परामृष्टः द्र. । j) उपसृष्टस्य धा. चुल्ल्युपर्याधाने वृत्तिः । k) सपा. हिश्रौ ८, १, ५२ उपपद्धाति इति पाभे. । l) प्रत्यधि^o इति Web. । m) ७, ७, ५ इत्यत्र यनि. शोध इति काशीकरः [POC २४०] । n) द्रस. । o) पस. ।

अधिभ्रयणीय-ये काश्रौ १, १, २१.

अधिभ्रयणो(ण-उ)दकासेचन-
तण्डुलावपनै(न-ए)धोऽपकर्षण-
क्रिया^०-याः पावा १, ४, २३.

अधिभ्रयणो(ण-उ)द्वासन^०-ने
काश्रौ २५, ८, ८.

अधि-भ्रयत्-यन्तम् कौस् ६४,
११.

अधि-भ्रयितवै काश्रौ ४, १३, १०^१.

अधि-भ्रित^०-तः अप्राय ४, २;

-^१तम् आश्रौ; -तस्य बौध १,

५, ६०; -ते आश्रौ ३, १२, ११;

-तेषु भाश्रौ २, ३, ४; हिश्रौ
५, २, २९.

अधि-भ्रित्य आश्रौ १२, ८, ३९.

अधि-श्रीयमाण-गम् आपश्रौ ९,

५, ८; वैश्रौ २०, ११ : ७^१५;

हिश्रौ १५, २, ७; अप्राय ४, ३^१५;

अध्यधि-भ्रित-तम् आश्रौ २,
२, १६^१.

अधि/षु (<सु [अभिषवे])

अधि-षवण^०-गम् शाश्रौ १४,

२२, १७; काश्रौ ८, ५, २३; आपश्रौ

१, १९, ६^१; बौश्रौ १, ६ : १४^१;

६, २८ : २; ८, १९ : ५; भाश्रौ

१, २१, ४^१; भाश्रौ २, २, ३,

३८; वैश्रौ ४, ६ : ११^१; हिश्रौ

१, ५, ४५^१; -गस्य भाश्रौ २,

३, ४, १; हिश्रौ ८, ३, ४; -णे

काश्रौ ८, ५, २२; ९, ४, १; २२,

३, १२; काठश्रौ ९६; बौश्रौ ६,

२८ : २; ८, १९ : ५; १८, ३६ :

३; २३, १८ : ३०; भाश्रौ २,

३, १, २१; ४, १३; ५, ४, २४;

वैश्रौ १५, ११ : ५; हिश्रौ ८,

३, ३; लाश्रौ ८, ५, ६; तैप्रा ४,

११^१.

अधिषवण-चर्मन्^०-र्म आपश्रौ

१२, २, १४; १५; वैश्रौ १४,

९ : ८; हिश्रौ ७, ६, ३३; -र्मणः

हिश्रौ ८, १, ४०; या २, ५.

अधिषवणचर्म-फलक^०-के

आपश्रौ १३, १९, ६; वैश्रौ १६,

२३ : २.

अधिषवण-फलक^०-कयोः

आपश्रौ १२, २, १५; भाश्रौ २,

२, ३, ३९; हिश्रौ ७, ६, ३५;

लाश्रौ १०, १५, १७; -काभ्याम्

हिश्रौ ७, ६, २९; -के शाश्रौ

१४, २२, १८; आपश्रौ ११, १२,

७; १२, १०, १; २१, ४, १७;

२२, ४, १६; काश्रौसं ३३ : ३;

भाश्रौ २, २, ३, ३५; ३, ३, ९; ५,

४, २३; वैश्रौ १४, ९ : १; १५,

११ : १६; २३ : ११; हिश्रौ ७,

६, २८; ८, ३, ८; ५, ३३; ९, ५,

१२; १६, १, ५१; १७, २, २२;

लाश्रौ ८, ५, ६.

अधिषवणीय^१-यम् वृदे ३,

१०१.

अधिषवण्य^०-ण्या ऋप्रा ५,

५४^१.

अधि/ष्टा (<स्था)^१, अधितिष्ठति

शाश्रौ; भाश्रौ ६, १, २, २६^१;

अधिष्ठामि शाश्रौ ४, २१,

२^१; आश्रौ १, २४, ८^१; गोश्रौ ४,

१०, २; अधितिष्ठ अप १, १८,

१; १८^१, १, ९; अधितिष्ठानि

बौश्रौ ८, २४ : ११; अध्यतिष्ठत्

सु २७, १; अधितिष्ठत् वाधूश्रौ

२, २१ : ६.

अधिष्ठितस्थिरे शाश्रौ १५, २७,

१^१; अधिष्ठितस्थिरे बौश्रौ

४, ४ : १८; अधिष्ठितस्थिरे

आपश्रौ १६, २६, ६; १२; २९, १;

वैश्रौ १८, १९ : १; २० : १३;

हिश्रौ ११, ७, ५१; ८, २; अप्राय

६, २; अधिष्ठिताः वैश्रौ ३, ५ : ३;

हिश्रौ १, २२, ६.

अधिष्ठापयति काश्रौ १६, २,

१७; अधिष्ठापयेत् जैश्रौ १, १२ :

१४; २१ : ७; अप ४, ४, ६.

अधि-ष्ठान^०-ननम् आश्रौ; काश्रौ

९, १०, ११^१; भाश्रौ २, ४, १,

१८^१; -नात् वाध १२, १४;

-नाय आमिश्र ३, ४, १ : १०; बौपि

३, १, १४^१; जैश्रौ १, २३ : ८^१.

अधिष्ठान-प्रवचन-नानि या

४, १५.

अधि-ष्ठाप्य काश्रौ ४, ९, १२; कौस्

३४, ५.

अधि-ष्ठाय वाधूश्रौ ३, ३९ : १६;

१८; कौस् १९, १८.

अधि-ष्ठित, ता-तः कौस् ९०, १५;

-तम् आमिश्र ३, १०, ३ : १९;

शुश्र १, १; -ता वृदे ३, १३;

-ताः उनिसू ७ : ५; -ते माश्रु

२, १४, ३०.

अ-धिष्णिय^१-यः वाधूश्रौ ४, ६२ :

१५^१; -याः बौश्रौ ७, ११ :

२२; २५, १९ : ९.

a) द्वस. > कस. । b) द्वस. । c) वैप १, परि. च द. । d) षि^० इति पाठः ? यनि. शोधः ।

e) कस. । f) विप. (चर्मन्-) । तदर्हतीयश् छ > ईयः प्र. । g) पा १, ४, ४६ इत्यत्राऽयं परामृष्टः द. । h)

पाभे. वैप. १ परि. अधितिष्ठति काठ ३८, १२ टि. द. । i) सपा. वाश्र ११, ७ अधरं करोमि इति पाभे. । j) सपा. ऐत्रा

७, १८ आधिपत्ये इति पाभे. । k) पाभे. वैप १ परि. अधिष्ठानम् टि. द. । l) विप. (ऋत्विज्-) । बस. ।

अ-धिष्णय^a- -ष्णयानाम् आश्रौ ५, ३, २९; शाश्रौ ६, १३, ७; माश्रौ ५, २, १६, १७; -ष्णये द्राश्रौ ७, ३, १५; लाश्रौ ३, ३, १७; वैताश्रौ १२, ३.

अ-धिष्णय-वत्^b- -वन्तः वैताश्रौ ८, १८.

अधि✓सूप्, अधिसर्पतः शाश्रौ १७, १४, ६; अधिसर्पन्ति शाश्रौ १७, १७, ४.

अधि-सर्पण- -णात् शाश्रौ १७, १३, १२.

अधि✓स्कन्द्, अधिस्कन्द अप्रा ३, १, ७[†].

अधि✓स्ना > अधि-ज्ञात- -तस्य माय २, १४, २७.

अधि✓स्पृश, अधिस्पृशयेत् वाधूश्रौ ४, ९० : ६.

अधि-स्पर्श^c- -शंम् शौच १, ९; २, २४.

अधि-हस्त^d- > अधिहस्त्य^e- -स्त्यम् आपध १, ८, २२; हिध १, २, ११०.

अधी(धि✓श्वधा.)^f, पावा. श्रदा. पर. स्मरणे, आत्म. अश्वयने; अधीते वैताश्रौ ४३, ४६; आगृ ३, १, ३; ३, २; ३; ४, ६[†]; कौगृ २, ६, ८; ३, १२, २७; शां २, १०, ८; आमिगृ १, २, २ : ४१; २, ६, ४ : १०; कागृ २, ४; ९, ११; ४१, २४[†]; ४२, ३; वौगृ २, ९, ६; भागृ ३, १५ : ७; मागृ १, २, ७; ४, ५; ५,

३; २२, १८[†]; वागृ ६, ३१; गो १, ५; वाध ३, १९; २७, ५; आपध १, १२, २[†]; बौध १२, ६, ८; १०; ३, ८, ४०[†]; विध ३०, ३४; ३८; ५५, १६; वैध १, ५, ४; ५; हिध १, ४, २[†]; ऋअ ३, ३७; वृदे ८, १३३; शुअ १, ५; ९; ४, १५६; अअभू ८; कौशि ८१; माशि ३, ३; १६, ३; शैशि १६८; याशि १, ३९; ४१; २, ९९; नाशि २, ८, १८; पा ४, २, ५९; ५, २, ८४; पावा ४, १, १४; ५, २, ८४; [†]अधेति आश्रौ ६, २७, ३[†]; बौश्रौ १२, १६ : २; १६, ८ : २; द्राश्रौ ७, ३, १[†]; लाश्रौ ३, ३, १[†]; शां ३, ७, २[†]; भागृ १, २७ : ४[†]; मागृ १, १४, ५[†]; हिगृ १, २९, १[†]; गौपि २, ४, ९; अधीयते आश्रौ २, १९, ३८; १२, ९, १८; आपश्रौ २१, १२, २; बौश्रौ १६, ६ : ९; वाश्रौ ३, ३, २, २; ४, १, ७; हिश्रौ ७, १, ७; १६, ४, ३५; लाश्रौ १०, ९, १०[†]; निस् २, ११ : २९; १२ : ३०; १३ : २; ३, २ : १४; ४, ७ : १; ९[†]; ८ : ११; १२ : ३६; ५, २ : २६; १० : १२; ६, ७ : ६५; ८, २ : २६; ९, ३ : १९; २५; आगृ १, १, ४; भागृ ३, ८ : १०[†]; ११ : १०[†]; हिगृ २, १८, ४; २०, ९; जैगृ १, १५ : ३; २, ३ : १३; अप २०, ६, ४;

४१, ३, ३; वृदे ३, १२५; अधि...मि शाश्रौ १, ६, ३[†]; अधीमहे जुस् ३, १ : २१; १२ : २७; द्राश्रौ ९, ४, १७; निस् २, २ : ४; ७; ११; २०; १२ : २६; १३ : ४; ३, १ : ४; २ : १२; ३ : ९; ४, १ : २४; ५, २ : २५; ६, १ : ८; कौस् ९२, १७[†]; अंप ३ : ६; अधीमसि उस् ४, २०[†]; [†]अधीन्व आगृ १, २२, २; वौगृ २, ५, ४५; भागृ १, ९ : १०; ३, ४ : १६[†]; अधीहि आगृ १, २१, ४[†]; [†]कौगृ २, ४, ५; ३, ९, ५५; शां २, ५, १०; ४, ८, १२; ६, ३, ६; आमिगृ १, १, ३ : ५३[†]; वौगृ २, ९, ४[†]; भागृ ३, १५; १; वागृ ५, २४[†]; वैगृ २, ६ : १६; हिगृ १, ६, १०; गोगृ २, १०, ३४; द्रागृ २, ४, २१[†]; आपध १, १०, १५; हिध १, ३, ४३[†]; गौध १, ५२; अग्रा १५, ४; अधि...इत्, > ता ऋप्रा ७, ३३; शुप्रा ३, ११६; अधीयीत आपश्रौ १५, २१, १; २; ५; १०; १३; १५[†]; बौश्रौ ९, २० : २[†]; १७; २३-२७; भाश्रौ ११, २२, ४; ५; ९; १३; १५; १८; १९[†]; वाश्रौ ३, २, ८, १४[†]; वैश्रौ १, ४ : ३; सु ३१, ४; ५; भागृ ३, २, २; ३, १; ५, १४; कौगृ १, १, १; ३, ९, ४७; ५५; ६०; शां १, ४, १; ४, ७, ५२; ८, १४; ६, २, १; आमिगृ १, २, ३ : २१; २, ५, ३ :

a) = अ-धिष्णय- b) विप. । तस. । c) अस. उप. =स्पर्शवर्ण- । d) अस. । e) विप.

(अज्ञालिस्थित-पूजोपकरण- वा उपायन- वा) । तत्रभवीयः यत् प्र. । f) पा १, ३, ८६; २, ३, ५२; ४, ५१; ६, १, ४८ पावा ३, २, १२६; ५, १, ७२ इत्यत्राऽयं परामृष्टः द्र. । g) पाभे. वैप १ परि. अध्येति मा ३, ४२ टि. द्र. । h) अधीयन्ते इति पाठः? यनि. शोधः (तु. संस्कृतुः टि.) । i) पाभे. पृ ९२ ० द्र. । अधीमहि इति पाठः? यनि. शोधः (तु. मूको.) ।

४४; ६, ४ : ७; ८; ३, ७, ४ :
 ३०; बौग २, ९, ५; ११, ५९; ३,
 २, १४; १५; ३९; ४०; ४, २८;
 २९; ३४; ३५^३; ३६^३; ७, २७;
 २८; बौपि २, ४, १९; भाग ३, ८ :
 ११^३; १५ : ३^३; माग १, ४, १०;
 १२; १६; २, ७, १०; ८, ३; वाग ८,
 ९; वैग १, ४ : २९; २, १० : १४;
 ११ : ११; ६, ११ : ७; ८; गोग
 १, ५, १३; जैग २, ८ : ११; १३^३;
 कौस् १३९, २४; १४१, २८;
 ३६; कप्र ३, ९, २; ३; वाध
 १३, ६; शोध ४४; ४५; आपध
 १, ९, १; ५; ८; १३; २७; १०,
 १३; १५; १८; ११, ६; १४;
 २३; ३५; १२, ३; ३२, १७;
 बौध १, ११, ३४; ३५; ३, ५, २;
 ९, ५^३; ७; ९; १०^३; १५; विध
 ३०, १; ४; वैध २, ११, ७; १२,
 ३; १३, ६; हिध १, ३, १; ५;
 ८; १३; २८; ४२; ४३; ४५;
 ५३; ६३; ६८; ७३; ८६; ४,
 ३^३; ८, ५९; गौध ९, २७; १६,
 १; ५; काध २७३ : ४३; माशि
 ११९^३; १२०; कौशि ४४;
 अधीयात् आश्री ९, ९, ९; ११,
 २०; आपश्री २०, ७, १३; १४;
 हिश्री १०, ८, २; आग १, १३,
 २; अधीयीरन् हिश्री २१, २, ६;
 द्राश्री ४, १, १०; ९, २, ८; लाश्री
 २, १, ९; ३, ६, ७; सु ३०, ५;
 कौग ३, ८, ४; ९, ४६; ५८^b;
 शांग ४, ६, ९; ७, ५१; पाग २, ५,
 ४३; १०, २३; ३, १०, ३१; बौग
 ३, १, ९; १३; १४; २८; ९,
 १०; १४^३; गोग ३, ३, २०; जैग

१, १५ : ३; कौस् १४१, २; शोध
 ४७.

अधीयेत वाश्री १, १, ३, ५.

अध्येयन्ते सु ३०, ६.

अधीयते शाश्री १५, २७, १^३.

अधीयन्ते अप ७०^३, १६, २;

वृदे २, ४५.

अध्यापि पा ६, १, ४८; अध्या-

पयते बौश्री ९, २० : ३; बौग

३, २, १६; ४१; ४, २९;

भाग ३, ५ : १२; अध्यापयति

वैग २, १२ : २०; वाध २, ५^३;

बौध १, ११, ३१; वैध १, ५, ४;

५; अअ ८, १; अध्यापयेत् आग

१, १९, ९; वैग २, ६ : १९; २०;

१२ : २१; वाध ३, २१; ११,

७५; ३०, ७; आपध १, १०,

१४; १६; ११, १४; ३२, ४;

बौध ४, ८, १४; विध २९, १;

२; ५; हिध १, ३, ४२; ४३;

६८; ८, ४६; काध २७३ : ४४;

वृदे ८, १३६; नाशि १, ६,

२२; अध्यापयेयुः शांग २, १,

११; पाग २, ५, ४०; बौग

३, १३, ६; वाग ५, ३; गोग २,

१०, ५.

अधिजिगांस पा २, ४, ४८; पावा

६, ४, १६.

१ अधी(धि-इ)त, ता^c— पाग ५, २,

८८; —तः माश्री ५, २, १४, २२;

जैश्रीका १७१; —तस् आग ३,

९, १; पाग ३, १५, २३; जैग २,

८ : १८; कौस् १३९, २६^३;

कौशि ५८; माशि १५, ३; याशि

१, ४५; नाशि २, ८, १९; —तस्य

विध ३७, ५; —ता कौग ३, १२,

२६; अप ६९, ९, १^३; —ताः

वाध ६, ३; शुअ २, १२८;

—तेन आपश्री १९, १३, ७^३;

हिश्री २३, २, ४०^३; शुअ ४,

२२१.

अधीत-पूर्व^d— वांगाम् आश्री

८, १४, २२.

अधीतिन्— पा ५, २, ८८.

अधी(धि-इ)व्य आपश्री १५, २१, १४;

बौश्री ९, २० : २४; १७, ३९ : १;

भाश्री ११, २२, १६; माश्री ४,

८, ३; निसू २, २ : ११; आग

३, ३, ४; कौग ३, ९, ५६;

१२, ८; शांग ४, ८, १५;

पाग २, ११, १०; आम्रिग १, ३,

१ : १; २, ६, ४ : १३; आपग

१२, १; काग ९, १०; बौग १, ७,

२; ३; २, ६, १; ५; बौपि ३, ११,

१; भाग २, १८; १; ३, ११ : १४;

माग १, ४, ७; वाग ५, ३०; ६,

३२^३; ८, ५; ७^३; ८; वैग १, १ :

१३; २, १२ : २७; ६, ८ : ६;

हिग १, ९, १; गोग १, १,

७; ३, ३, ५; ४, १; गौपि १,

७, १४; जैग १, १४ : ५; १९ :

१; २, ८ : १७; १९-२१; द्राग

१, ३, १; ३, २, २४; अप २,

६, ४; २२, १०, ५; ६९, ८, १;

वाध ७, ३; १२, ४६; २७, १९;

आपध १, १०, १७; २, ५, २;

३; ६, ४; बौध ३, ९, १२-१४;

विध ३०, २७; वैध १, ३, २;

हिध १, ३, ४४; २, १, ८२; ८३;

२, ४; गौध ९, २८; काध २८२ :

७; अप ३ : ५; चव्यू २ : १८^३;

१९^३; २७; ३ : १२^३; या १,

a) अधीयेत इति पाठः ? यनि. शोधः । b) सपा. अधीयीरन् <> अधीयात् इति पाठे । c) भावे
 कर्मणि वा क्तः प्र. । d) सुसुपीयः समासः ।

१८^१; कौशि ४३; अधीत्य-
अधीत्य पाठ ३, १५, २३.
अधी(धि-इ)यत्- पा ३, २, १३०;
-यता तैत्रा २४, ५; -यताम्
शांठ ४, ८, १८^१; -यन्तः
आपथ्रौ १५, ८, १६; बौश्रौ १६,
१ : १८; २ : ८; भाश्रौ ११, ८,
२१; वैश्रौ १३, १० : २०; हिश्रौ
२४, ३, ७.
अधी(धि-इ)यमान- नः भाश्रौ ११,
२२, १७; माशि ३, ५; शैशि
१७०; -ने वाध ६, ५.
अधी(धि-इ)यान- नः शांठ ४, ८,
१९^१; आम्रिगृ १, २, १ : २३;
२५^२; कौस् १३९, २१; २२;
वाध ४, ३३^१; ६, २८; १०, १४;
२०, ४६^१; आपध १, १०, १३;
वैध २, ११, ७; हिध १, ३, ४२;
बृदे २, २१; ६, १४२; कौशि
५२; -नम् शांठ १, २, ६; कप्र
२, ५, ४; ७; -नाः शंध १४३;
विध ८, ८; चव्यू ३ : २; -नात्
विध ३०, ४१; -नानाम्^० कौस्
१४१, ४२; वाध २३, २७; -ने
या १, ८; -नेषु आपध १, १०,
१८; हिध १, ३, ४५.
अधीयान-विद्वस्^१ - दुषोः पावा
१, ३, १०.
?अधीथीतृ^० - तारम् कौगृ ३, ९,
५८^१.
अध्य(धि-अ)यन- नम् वैश्रौ २०,
१ : २; कौगृ ३, १२, ७; अत्राय
१, ३; वाध २, १६; आपध
१, ९, ४; २, ४, २५; १०, ४;

बौध १, २, ४२; १०, ३; विध
३०, २८; वैध १, २, १; ३, ३;
हिध १, ३, ४; २, १, ७८; ४, ४;
गौध १०, १; सुध ७; ८; चव्यू
१ : ९; २ : ८; १७; ३८; ३ :
९; ४ : ४; या ६, २५; ऋमा ११,
७१; -नात् आपध १, ५, २३;
विध २६, ३५; हिध १, २, २४;
बृदे २, १४२; -ने लाश्रौ ८, ६,
१; सु १, ५; कौगृ ३, १२, ३१;
मागृ २, १४, १९; शंध ३३७ :
२२; दंवि १, २; पा ४, ४, ६३;
७, २, २६; -नेन वौश्रौ २४,
१२ : ५; वाध २०, ४७.
अध्ययन-तपस्^१ - पाग २, ४,
१४.
अध्ययन-तस् (:) पा २, ४, ५.
अध्ययन-पारायण^१ - गाय वैगृ
२, १२ : २५.
अध्ययन-प्रपन्न^१ - न्ने विध
२९, ११.
अध्ययन-यजन-दान-कृधि-वाणि-
ज्य-पशुपालन-संयुक्त^१ - क्तम्
बौध १, १०, ४.
अध्ययन-यजन-दान-शस्त्र-कोश-
भूतरक्षण-संयुक्त^१ - क्तम् बौध
१, १०, ३.
अध्ययन-विघ्न^१ - न्नेन आपध
१, ८, २५; हिध १, २, ११३.
अध्ययन-विधि^१ - धिम् कौस्
४१, १.
अध्ययन-संपन्न^१ - न्नात् आम्रिगृ
३, ११, १ : ११.
अध्ययन-सं [सां]वृत्ति^१ - त्तिः

आपध १, ५, ९; २, ६, १३^१; हिध
१, २, ९; २, २, १३^१.
अध्ययना (न-आ)दान^१ - नम्
विध ३७, २१.
अध्ययना (न-अ)ध्यापन-यजन-
याजन-दान-प्रतिग्रह^१ - हाः वैध
१, १, ५.
अध्ययनाध्यापनयजनयाजन-
दानप्रतिग्रह-संयुक्त^१ - क्तम्
बौध १, १०, २.
अध्ययना (न-अ)थं - थंन
आपध १, १४, ३; हिध १, ४, ३६.
अध्या (धि-आ)पक- पाग २, १, ५९;
७०; २, ९; ६, २, १५१; -कं
मागृ २, १४, १८; -कम् भागृ
१, ११ : १०; बौध १, १०, १२;
हिध १, ७, ६४^१; -कं विध २८,
३१.
अध्या (धि-आ)पन- नम् कौगृ ३,
११, ४४; पागृ २, ५, ४२; कप्र २,
३, ३; वाध २, १४; शंध ९०; आपध
१, २, ८; ३२, ३; १४; २, १०, ४;
बौध २, १, ४७; विध २, ५; हिध
१, १, ४१; ८, ४५; ५६; २, ४, ४.
अध्यापन-परिकीत^१ - त्तैः बौध
४, ८, ८.
अध्यापन-याजन-प्रतिग्रह^१ -
हाः बौध ३, १, १६; -हैः बौध
२, २, ६९.
अध्यापन-याजन-प्रतिग्रहण^१ -
णानि आपध २, १०, ६; हिध
२, ४, ६.
अध्या (धि-आ)पयत्- यत्रि आपध
१, ७, २८; हिध १, २, ८५; -यन्

- a) सप्र. अधीयताम् <> ? अधीथीतारम् इति पाभे. । b) सपा. कौगृ ३, ९, ५८ अधीथीरन् इति पाभे. ।
c) प्यानाम् इति पाठः ? यनि. शोधः (तु. संस्कृतुः टि.) । d) द्वस. । e) = अथ्येत्- । f) षस. । g) विप.
(विप्र-) । द्वितीयासमासः । h) विप. । द्वस. > तुस. । i) विप. । तुस. । j) समोऽकारस्य छान्दसो दीर्घः ।
k) सपा. वाध ३, १८ स्वाध्यायिनम् इति पाभे. ।

बृदे २, २१; -यन्तम् आपध १,
१३, १३; हिध १, ४, २७.

अध्या(धि-आ)पयितुम् > अध्याप-
यितु-काम^३- -मः वैगृ २, १२ :
२१.

अध्या(धि-आ)पयितृ- -तुः आपध
२, ५, १६; हिध २, १, ९८; ऋप्रा
१५, ६.

अध्या(धि-आ)पित- -तः बृदे ५, ५३;
-पिताः वाध २, ११; या २, ४.

अध्या(धि-आ)प्य आभिगृ २, ७,
१० : २; शंध १५८.

अध्या(धि-आ)प्य- प्यः आपध १,
१, ३१; २, ४; हिध १, १, २९;
३७; -यैः आगृ ३, ५, १०.

अध्या(धि-आ)य^३- पाग ६, २,
१७६; -यः आश्रौ ८, १४, २१;

निस् ३, १२ : १२; ४, २ : ६;
कौस् १४१, ३४; कप्र ३, १, १५;

शंध ३६७; बृदे ४, १००; शुअ
२, २४५; ३, ४५; ७७; १०१;

१०८; १४२; ४, ४२; ६०; १२२;
साअ २, ११९९; १२०२; ऋप्रा

१८, ५८; -यम् निस् ३, ११ :
२३; अप ७०^३, १९, ५; ७०^३,

११, १; आपध १, ९, १; हिध
१, ३, १; ऋप्रा १५, २२; -याः

चव्यू १ : १०; -यात् शुअ १,
५४३; ५८९; ३, १५; ४३;

-यान् पागृ २, १२, १; कागृ
९, १०^३; मागृ १, ४, ५; ९;

वागृ ८, १; ४; ७; वैगृ २, १२ :
२२; द्रागृ ३, २, १४; कौस् ३८,

२३; वाध १३, ४; शुअ ३, २;

-यानाम् ऋअ ३, ३८; -याय
वैगृ २, १२ : ८; -ये वौगृ ३, ४,

३३; आपध १, ५, २३; हिध
१, २, २४; ऋप्रा १५, ३१; शुप्रा

३, १९; १४६; -येन काश्रौ
१८, १, १; निस् २, २ : ४; ११;

११ : २८; शुअ ३, ४१; -येषु
पा ४, ३, ६९; -यैः अप ७०^३,

११, २; -यौ जैगृ १, १५ : २;
शुअ ३, १३३.

अध्याय-देवता^३- -ताय वैगृ २,
१२ : ८.

अध्याय-न्यायो(य-उ)द्याव-
संहार^३- -राः पा ३, ३, १२२.

अध्याया(य-आ)दि^३- -दीन् पागृ
२, १०, १८.

अध्यायाद्य(य-आदि-अ)न्त^३-
-न्तयोः शांठ ६, ३, ९.

अध्याया(य-अ)नध्याय^३- -यम्
आपध १, १२, ७; हिध १, ४, ७;

-यौ जैगृ १, १५ : २.
अध्यायानध्याय-संशय^३-

-ये आपध २, १२, २०^३; हिध
२, ४, ५७.

अध्याया(य-अ)नुवाक^३- -कयोः
पा ५, २, ६०; -काभ्याम् पावा

५, २, ६०.
अध्याया(य-अ)न्त^३- -न्तेषु

ऋप्रा १५, १३.
अध्याय(य-आ)यैया(य-आ-
द्य)द्या^३- -द्याभिः शांठ ४,

५, ५; कौगृ ३, ७, ७.
अध्यायो(य-उ)पपादन^३- -नात्

आश्रौ ८, १४, ८.

अध्यायो(य-उ)पाकरण^३- -गम्
आगृ ३, ५, १.

अध्यायो(य-उ)पाकर्मन्^३- -र्म्
पागृ २, १०, १; आभिगृ १, २,

१ : १; २; हिगृ २, १८, २.

अध्या(धि-आ)यक^३- > ँक-वेदा-
ध्याया(य-आ)द्य(दि-अ)यै^३-
-यैम् पावा ३, १, १३३.

अध्या(धि-आ)यिन्- -यिनि पा
४, ४, ७१.

अध्ये(धि-ए)तव्य- -व्यः वौध २,
६, ९१; वैध २, १२, ४; शुप्रा

८, २८; -व्यम् कौगृ ३, १२, १;
आभिगृ १, २, १ : ७; २ : ४३;

हिगृ २, १८, ७; २०, ९; वाध
१८, १२; १३; विध १००, ३.

अध्ये(धि-ए)तृ- -ता अप ४४, २,
४; शंध २००; -तुः वैताश्रौ ४३,

४७; अप १, ५०, १०; ऋप्रा १५,
६; -तृणाम् मागृ २, १४, १९.

अध्ये(धि-ए)य, या- -याः शुअ ३,
१४७; -यानि वौगृ ३, २, ४.

अध्ये(धि-ए)व्यत्- -व्यता वागृ ७,
१७.

अध्ये(धि-ए)व्यमाण- -णः आपश्रौ
१५, २१, १०; १२; माश्रौ ११,

२२, १५; माश्रौ ४, ८, १; आगृ
३, ५, १०; पागृ २, ७, १८; मागृ

१, २३, २१; आपध १, ९, १३;
१३, ६; हिध १, ३, १३; ४, २०;

-गस्य मागृ १, २१, १३१;
वागृ ९, १.

अधीकर्णी- अधिकर्णी- द्र.
१ अधी(धि-इ)त- अधी द्र.

a) विप. । वस. ।

b) नाप. भाप. च । भवे कर्मण्यधिकरणे वा कृत् । c) षस. ।

d) द्रस. । e) षस. > द्रस. ।

f) संशय- इति रहितः पाठः ? यनि. सुकरः (तु. टीकाकारः, हिध. च) ।

g) विप. (ऋच्-) । द्रस. > षस.

h) नाप. (अध्येत्-) । गस. उप. ष्वुल् प्र. । i) द्रस. >

वस. > वस. ।

२अ-धी (त>) ता^१- -ताः, -ताभिः,
-तायाम् अप्राय ४, १.

अधीतिन्-अधी (धि-इ)स्य अधी द्र.

अधी(धि-ईन>)ना^१- -नाः बौश्रौ
१६, ४ : १०.

अधी (धि-इ)यत्- अधीयमान-
अधीयान- ?अधीयीत्-अधी द्र.

†अधी(धि√ई)रु, अध्यैरयन्त अप्रा
१, १, १२.

अधी-लोघ- अधोलोह- अधि√रुह
द्र.

अधी-वाक्या- अधि√वच् द्र.

अधी-वास-अधि√वस् (आच्छादने)
द्र.

अ(धि>)धी-वासस्^१- -सः काश्रौ
२, ७, १^१; -ससा वैताश्रौ ३६,
२९.

अधी(धि√इ)ष् (इच्छायाम्)

अधी(धि-इ)ष्ट- -ष्टः या ८, ८; पा
५, १, ८०; -ष्टे पा ३, ३, १६६.

अधीष्ट-भृत^१- -तयोः पात्रा ५,
१, ८०.

अध्ये(धि-ए)षण- -णात् वृदे ५, ३०.

अध्ये (धि-ए) षणा^१- -णा पावा ३,
३, १०७; या ६, ६.

अध्येषणा-कर्मन्^१- -र्मा या ७,
१५; -र्माणः निघ ३, २१; या ३,
१९.

अधुना^१ निस् २, २ : २१; कप्र ३, ४,
९; अप ४८, ६९; विघ १, ४६;
पा ५, ३, १७.

अ-धुन्वत्^१- -न्वन् अप २७, १, ४.

अ-धून्वत्^१- -न्वन् वैश्रौ ९, ५ : १०;
हिश्रौ ५, ४, ३१.

अ-धूप^१- -पम् गौषि २, ६, ३.

अ-धूम, मा^१- -मः अप २९, २, १;
७०^२, २१, १; -मानाम् अप
६४, ४, ४; -माभिः अप २४,
४, ३.

अ-धृ(त>)ता^१- -ता हिश्रौ २२,
३, ३१.

अष्टत-गमन^१- -०न या ५, ११.

?अ-धृषित- -ताः^१ या १०, ३०^१.

†अ-धृष्ट, षा^१- -ष्टाः आपश्रौ १६,
१४, ५; वाश्रौ २, १, ५, २०.

अधृष्टा(ष्ट-अ)कार्य^१- -र्ययोः पा ५,
२, २०.

अ-धेनु^१- -नुः आपध १, ३१, ११;
बौध २, ३, ३९; हिघ १, ८, ३०;
-नुम् आपध १, ३१, ११; बौध
२, ३, ३९; गौध १२, ३८; -न्वा
या १, २०^२१.

अधोक्ष- प्रमृ. अधस्- द्र.

अ-धौत-पाद^१- -दः शंघ ९५.

अध्य(धि-अं)स्^१- -सौ आय १, २०,
१०.

†अध्य(धि-अ)क्ष^१- -क्षः वाश्रौ १,
२, १, ९; कौस् ८९, १३^१;
अप्राय १, २^३६; ५; ६, ५; अत्र
९, २; -क्षम् बौश्रौ ३, १६ : ५;
अप ५, ५, ३; -क्षायाम् बौश्रौ
७, १२ : २०; ३७; ५०; -क्षे

पा ६, २, ६७; -क्षेण काश्रौ २,
१, ३; -क्षेभ्यः आश्रौ २, १०,
१८; काश्रौ १०, ४, ११; आपश्रौ
४, ११, १; १३, १०, १^२; बौश्रौ
८, १० : ७; ९; भाश्रौ ४, १६,
२; माश्रौ २, ५, १, ८; ९; वैश्रौ
१६, १२ : २; हिश्रौ ६, ३, ३; ९,
३, २१^२.

अध्य(धि-अ)ग्नि^१- -ग्नि विघ १७, १८.

अध्य(L, ध्याधि-अ, आण्ड >)-

ण्डा^१- -ण्डे कौस् ३५, ४.

अध्या, ध्याण्डा-मूल^१- -लम् कौगृ
१, १२, १; शांगृ १, १९, १.

अध्यधि-वेदि^१- -दि काश्रौ २, ६, २५^१.

अध्यधि-धित- अधि√ध्रि द्र.

अध्य(धि-अ)न्व (तु-अ) व√स्वृ

अध्यन्व-स्वरण- -णम् निस् १,
१२ : ११.

अध्यर्थ- अधि द्र.

अध्य(धि-अ)यन- अधी(धि√इ) द्र.

अध्य(धि-अ)र्ध, धां^१- -र्धः आश्रौ १०,
३, २१; २२; ४, ३; शाश्रौ १६,
२९, ३; तैप्रा २, २८; -र्धम्
माश्रौ १, २, ३, ४^२; गौध १२,
७; -र्धां लाश्रौ ७, १०, ४; आपशु
१६, ६; बौशु १२ : ४; हिशु ३,
४४; ५, २७; ऋश्र २, १, २३;
वृदे ३, ९७; शुप्रा ४, १५१;
-र्धाः आपशु ९, १२; १०, १;
५; १३, ११; १२; १६; बौशु ९ :
१; ४; ९; ११ : ७; ११; १३; १४;

a) विप. (गो-) । तस. उप. <√धे [पाने] । b) प्रास. । c) =अधिवास- प्रास. । d) वा.

क्रिवि., एतदनु पृ १२० शोधः । e) द्वस. । f) उपसष्टस्य धा. प्रार्थनायां वृत्तिः । g) विप. । बस. । h) वैप

१ परि. द्र. । i) विप. । तस. । उप. यथाक्रमम् <√धु, धू [कम्पने] । j) वैप १, परि. च द्र. । k) पाठः ?

धृषिताः इति शोधः (तु. ऋ १०, ८४, १) । l) विप. । तस. > बस. । m) विप. (पाणि-) । बस. उप.

=स्कन्ध- । n) पामे. वैप १ श्रेष्ठतमः तै १, ५, १०, २ टि. द्र. । o) अस. वा. क्रिवि. । p) नाप. (ओषधि-विशेष-

[=कपिकच्छु- =पर्याफला- इति दारिलः] । व्यु. ? । q) षस. । r) वैतु. web. अध्यधि, वेदिम् इति ? । s) विप.

([सार्ध-] संख्या- [तु. पावा १, १, २३]) । बस. ।

१७ : ८; हिशु ३, ३१; ३८; ४, ४०; ४१^१; -र्धाभिः बौशु ११ : ५^१; २१ : ७; -र्धाम् आश्रौ १, २, २०; २१; २, १९, १७; ६, ५, २४; ८, १, ३; शाश्रौ ६, ७, १०^३; ९, २०, ३२; बौशु १ : २८; १७ : ११; ऋअ २, १०, १३४; -र्धायाः बौशु ११ : ८; -र्धे काश्रौ ८, ३, १४; बौशु १७ : १४; हिशु २, ३९^२; -र्धेन बौश्रौ १८, ६ : २२; २६, ३० : १८; आपशु ६ : १०; -र्धेषु अप ५३, ६, ६.
 अध्यर्ध-काकिणी^b -> अध्यर्धका-किणीक^c - पावा ५, १, ३३.
 अध्यर्ध-कार्वाण^d -> °पणिक^d - पा ५, १, २९.
 अध्यर्ध ✓कृ > अध्यर्ध-कारम् आश्रौ १, २, १९; २४; ५, १, ५; ७, १२, १०.
 अध्यर्ध-खारी^b -> °रीक^c - पा ५, १, ३३.
 अध्यर्ध-ग्रहण^c - णम् पावा १, १, २३.
 अध्यर्ध-ग्रहणा(रा-आ)नर्थक्य^e -क्यम् पावा ५, १, २८.
 अध्यर्ध-तृतीय-पुरु(व >)वा^f -वाः हिशु १, ५३^६.
 अध्यर्ध-पण^b -> °पण्य^c - पा ५, १,

३४.
 अध्यर्ध-पद्^h - देन बौशु १० : ३.
 अध्यर्ध-पाद^b -> °पाद्य, घा¹ - पा ५, १, ३४^c; -घाः बौशु २० : १४; -घे बौशु २० : २२.
 अध्यर्ध-पुरुष, पा¹ - षः आपशु १८, ३; -षा आपशु ३, १३; हिशु १, ५२; -षाः हिशु ६, ७.
 अध्यर्ध-पुरुष-व्यास¹ - -सः आपशु १५, १०; हिशु ५, १७.
 अध्यर्ध-पूर्व-द्विगु^h - -गोः पा ५, १, २८.
 अध्यर्ध-प्रक्रम^h - -मे बौशु १० : ६.
 अध्यर्ध-प्रादेश^h - -शेन बौशु १२ : ९.
 अध्यर्ध-मात्रा¹ - -त्रा शुप्रा ४, १५०.
 अध्यर्ध-माष^b -> °माष्य^c - पा ५, १, ३४.
 अध्यर्ध-विंशतिक^b -> °तिकीन^c - पा ५, १, ३२.
 अध्यर्ध-शत^b - पा ५, १, ३४; पावा ५, १, ३५^d; -तम् हिश्रौ १७, ४, १.
 अध्यर्ध-शस्य^d - पा ५, १, ३४; पावा ५, १, ३५.
 अध्यर्ध-शत-मान^b -> °शत-मान^c - पावा ५, १, २९.
 अध्यर्ध-श(म >)मी^m - -मीम् कौसु १३७, ८.

अध्यर्ध-शाण^b -> °शाण्य^c - पा ५, १, ३५.
 अध्यर्ध-शीर्ष^h -> °र्ष(एय >)-ण्याⁿ - ण्या अप २४, १, ४.
 अध्यर्ध-सहस्र^d -> °साहस्र^d - पा ५, १, २९.
 अध्यर्ध-सुवर्ण^b -> °सौवर्णिक^c - पावा ५, १, २९.
 अध्यर्ध(र्ध-इडा >)ड, डा^o - -डम् द्राश्रौ ९, ३, ३; लाश्रौ ३, ६, २२; लुसु ३, ५ : ७; -डाः लुसु ३, ७ : ७.
 अध्यर्ध(र्ध-इ)ष्टका^p - -काम् बौशु १२ : १०.
 अध्यर्धो(र्ध-उ)पा^p - पानाम् लाश्रौ ७, १०, ४.
 ?अध्यर्ध...तयः कौशि ७३.
 अध्य(धि-अ)र्धशीर्ष^b - -र्षम् बौश्रौ ४, ५ : १७^f.
 अध्य(धि-अ)व ✓दो (अत्रखण्डने) > अध्यव-दा(न >)नी^o - -नीम् काठश्रौ ५२.
 अध्यवदानी(य >)या¹ - -या वौश्रौ १०, ५९ : १६; १७, ५६ : २२; ६२ : १२; २२, १२ : १०^१.
 अध्य(धि-अ)व ✓रुह, अध्यवरोहति हिश्रौ १३, ६, १५; हिश्रु १, ११, ९.
 अध्य(धि-अ)व ✓सो > अध्यवसेत्^m बौश्रौ २१, ११ : ६; कौसु

a) ॰र्ध्या इति पाठः इ यनि. शोधः (तु. मूको.) । b) नाप. । द्विस. उप. =परिमाण-विशेष- । c) विप. (तन्मूल्यक-वस्तु-) । d) विप. । द्विस. तेनक्रीतीयस्य प्र. वा लुक् । e) षस. । f) विप. । द्विस. प्रमाणेऽर्धे प्र. लुक् (पात्रा ५, २, ३७) । g) सपा. आपशु ३, १४ अर्धतृतीयपुरुषाः इति पाभे. । h) द्विस. उप. =प्रमाण-विशेष- । i) विप. (तत्प्रमाणा- इष्टका- [बौशु.]) । j) विप. (आत्मन्-) । बस. उप. =परिणाह- । k) बस. > द्वस. । l) द्विस. उप. =वर्णमात्रा- । m) विप. (उत्तरवेदि-) । द्विस. ङीप् प्र. (पा ४, १, २१) । n) विप. (वेदि-) । प्रमाणे यत् प्र. उंसं. । o) विप., नाप. (साम-विशेष-) । बस. । p) कस. । q) अस. वा. क्रिवि. । उप. तस. । r) सप्र. आपश्रौ ७, १३, ८; वैश्रौ १०, १० : ११ अर्धशिरसि इति । s) विप. (स्वधिति-) । गस. उप. करणे ल्युट् । t) विप. (आभिच्चा- [भैत्रावरुणी- , वारुणी-]) । वैप १, १६३ b द्र. । u) भ्वादौ धा. ओकारस्य लोपः उंसं. (पा ७, ३, ७१) ।

१३७, १.
 अध्यवस्यति शांश्रौ; या १४, ६;
 अध्यवस्येत् आपश्रौ १०, १९,
 १६.
 अध्यवसायेत^a माश्रौ ५, २, १०,
 २६.
 अध्यव-सान- नम् भाश्रौ १०, १३,
 ५; -नस्य बौश्रौ १४, १: २३;
 -नाय वौगृ २, ११, ६२; -ने
 बौश्रौ २१, ७: ५; ११: ५;
 २२, ३: २९; हिश्रौ ११, ५,
 ६.
 अध्यव-साय शांश्रौ.
 अध्यव-सित- -ते आपध १, ९, ७;
 हिध १, ३, ७.
 अध्यव-स्य वैश्रौ १६, २८: ११.
 अध्यव-स्यत्- -स्यन् माश्रौ ५, १,
 ५, १८.
 ?अध्यशाययिष्यत्^b निस् ५, १०: ८;
 ९, ६: ८; ७: ९; १०, ७: २९.
 ?अध्यशिशाययिषीत्^b निस् ६,
 ४: ९.
 अध्यश्व- > आध्यश्चि^c- (> आध्य-
 श्वीय^d- पा.) पाग ४, २, १३८.
 अध्य(धि√अ)स(त्तेपणे), अध्यस्यति
 काश्रौ ८, ३, २०; आपश्रौ २१,
 १९, १२; २२, १६, २; बौश्रौ
 ६, १५: १२; माश्रौ १, २, ५, ८;
 ३, १, २६; ४, ३; २१; ७, १,
 ४६; २, ३, ६, १७; ४, १, १८;
 ६, १, ५, १८; वाश्रौ ३, २, ५, ४०;
 हिश्रौ १६, ६, ३२; अध्यस्यन्ति

बौश्रौ १, ८: २१; ६, २५: १७;
 २७: १५; आमिष्ट ३, ५, ७:
 १८; बौपि १, ६: १२; अध्य-
 स्येत् बौश्रौ २०, ११: १८.
 अध्यसिष्यामहे निस् ४, ३: १८.
 अध्य(धि-अ)स्त->°स्त-पुरीष^e-
 -ष:बौश्रौ २५, २७: २६; २८: १५.
 अध्य (धि-अ)स्य वैश्रौ १४, ११:
 ६; हिश्रौ १७, ६, ३१; शंघ
 ४११.
 अध्या(धि-आ)स- -स: निस् ३,
 १३: १०; -सम् निस् ४, ३:
 १७; १८; -सा: निस् ३, १३:
 १४; -सान् आश्रौ ८, ८, ७;
 ऋप्रा १७, ४३^f; -सेषु लाश्रौ
 ७, ५, ६.
 अध्यास-पुरीष^f- -षाणि लाश्रौ
 ७, ५, ८; -षेषु लाश्रौ ७, ५, ११.
 अध्यासपुरीष-पद^g- -दानाम्
 निस् ४, १: २६.
 अध्यास-वत् आश्रौ ४, १५, ६.
 ?अध्यास-संज्ञा^e- -ज्ञा साश्र २,
 २०८.
 अध्या(धि-आस्य>)स्या^h- -स्या
 लाश्रौ ६, ३, २२; ७, ५, ९;
 -स्यायाम् द्राश्रौ ९, ३, ९; लाश्रौ
 ३, ६, २९; ६, ३, २०; निस् ६,
 ३: १८-२०.
 अध्या(धि-आ)√चर > †अध्या-
 चार- -रⁱ आपमं २, १७, २७;
 पाग २, १४, ५; भाग २, १: १६.
 अध्या(धि-आ)ज्य^e- -ज्यान् माग २,

१०, २.
 अध्याण्डा- अध्यण्डा- द्र.
 अध्या(धि-आ)त्म¹- पावाग ४, ३, ६०;
 -त्मम् शांश्रौ १६, २०, २; २१,
 २; २३, ४; २४-३०, २; बौश्रौ
 १५, १९: ६; माश्रौ १, ४, १, ३;
 द्राश्रौ ६, ३, २७; ९, १, ५; शांघ
 १, २, ५; कौस् ९०, १९; अप्राय
 १, १; अप ४२, २, १०; शुश्र १,
 २५६; अश्र १३, १; या २, २०;
 ३, १२; १०, २६; १२, ३७; ३८;
 १३, ११; १४, १२-१६; १८;
 १९; २१; २३-२५; २७; ऋत
 ४, ६, २.
 अध्यात्मिक- पावा ४, ३, ६०;
 -क: ऋश्र १, २, ११; -कम् अप
 ४४, ४, २; विध ३०, ४३; -का:
 या ७, ३; -कानि अप ४२, २,
 ९; ११.
 अध्यात्मिकी- -क्य: या ७,
 १; २.
 अध्यात्म-क- -कम् अश्र ९, ९^k;
 १५, १.
 अध्यात्म-चिन्ता-गत- मानस¹-
 -सस्य वाध १०, १७.
 अध्यात्म ज- -जम् या १४, २.
 अध्यात्म-देवता->°वत्य^m-
 -त्यम् अश्र १०, ११.
 अध्यात्म-मन्यु-दैवतⁿ- -तम् अअ
 ११, ८.
 अध्यात्म-रत^o- -त: वैध २, ८, ७;
 ३, ७, १३.

a) आय: प्र. उलं. (पा ३, १, २८)। b) पाठ: ? यथाक्रमम् (अति √शिष्>शेषि>) अत्यशेषयिष्यत्, अत्यशिशेषयिषीत् इति शोधः। c) व्यप.। व्यु. ?। तस्यापत्यीयः इष् प्र. इति पागम.। d) =स्थान-विशेष- इति MW.। e) विप.। वस.। f) द्वस.। g) कस.। h) नाप. (ऋग्-विशेष-).। i) सपा. आग २, ३, ३ अभ्यागारे इति, माग २, ७, १ अभ्याचारे इति, हिगृ २, १६, ८ अभ्याचारेण इति पामे.। j) अस.। k) *करम् इति पाठ: ? यनि. शोधः। l) विप. (परिवाजक-).। षस.>द्वितीयासमास:>बस.। m) विप. (सूक्त-).। n) विप. (सूक्त-).। द्वस.>बस.। o) विप. (वैखानस-).।।

अध्यात्म-वादि (न >) नी^a- नी
शुभ ४, ३७.
अध्यात्मिक- -कान् आपध १, २२,
१; हिध १, ६, १.
अध्या(धि-आ)✓धा, अध्याद्धाति
माश्रौ १, ६, १, ७.
अध्या-हित- > ता(त-अ)मि-
-मिम् काण् २८, ३.
अध्या(धि✓आ)प्, अध्याप्नुयात्
हिपि १६ : ८.
अधीपन्ते बौध् ३, ९, ११.
अध्यापक- अध्यापन- प्रभृ. अधी(धि-
✓इ) द्र.
अध्या(धि-आ)✓भू, अध्याभवेत्
गौध १३, २७; अध्याभवेयुः
गौध १२, ३८.
अध्याय- प्रभृ., अध्यायक-, अध्या-
यिन्- अधी(धि✓इ) द्र.
अध्या(धि-आ)✓रुह्, अध्यारोहामि
जैग् १, २ : १४[†].
अधि...मा...अरुहत् वाधूश्रौ
४, ९४[†] : ९.
अध्या(धि-आ)✓वप् > अध्या-
वाप-> ष-श्रुति- -तेः काश्रौ ७,
७, १६.
अध्या(धि-आ)✓वस्(आच्छादने),
अध्यावासवेत् निसू १, ११ : ८.
अध्या(धि✓आ)स्^b, अध्यास्ते
शाश्रौ ४, २१, २; द्राश्रौ १, २, ४;
जैग् १, १९ : ३३; अध्यास्ते या
२, ५[†]; अध्यासीत आपश्रौ ९,
३, १०; माश्रौ ९, ४, १२; हिश्रौ
१५, १, ५८; द्राण् ४, ४, ९.

अध्यासयेत् द्राश्रौ ९, १, १९;
लाश्रौ ३, ५, २०.
अध्या(धि-आ)सीन- -नः ऋपा
१५, १; -नम् वैग् २, १२ : २०;
अध्या(धि-आ)स्य शंध ४३९.
अध्या(धि-आ)स्(क्षेपणे)
अध्या(ध्या-अ)स्यत्- -स्यन् आमिण्
१, १, ३ : ९.
अध्यास-अध्य(धि✓अ)स्(क्षेपणे) द्र.
अध्या(धि-आ)✓सद्, ऋअध्यासदे-
यम् आश्रौ १, ४, ७; कौस् ३, ७;
१३७, ३९.
अध्या(धि-आ)✓स्था >
अध्यास्थात्- -ता आपश्रौ २२, १२,
८.
अध्यास्या- अध्य(धि✓अ)स्(क्षेपणे) द्र.
अध्युत्तरपद- अधि द्र.
अध्यु(धि-उद् >)त् ✓सृप्
अध्युत्-सृप्य बौश्रौ १८, ९ : २८^०.
अध्युद्धि^d- -दिम् आपश्रौ ७, २२,
६^०; २६, ७^०; बौश्रौ ४, ८ :
५[†]; माश्रौ ७, १७, ६; १९, ११;
२१, ३; वैश्रौ १०, १७ : ९; २० :
७^०; हिश्रौ ४, ४, ६१; ५, ३३^०;
-द्धयै बौश्रौ ४, ९ : ४.
अध्यु(धि-उद्)द् ✓यम्
अध्युद्-यम्य आमिण् ३, ८, १ : १६;
बौपि १, १४ : १५.
अध्यु(धि✓उ)न्द > अध्यु(धि-उ)-
न्दन- -नेन वाश्रौ ३, २, १, १७.
अध्यु(धि-उद् >)न् ✓नी, अधि...
उन्नयन्ति हिश्रौ १७, ४, २९^०.
अध्यु(धि-उ)पसृष्ट- अधि द्र.

अध्युत्त-, अध्युप्य अधि ✓वप् द्र.
अध्युत्हा, अध्युद- अधि ✓वह् द्र.
?अध्युत्...क्राति^e वाधूश्रौ ३, ४९३.
अध्यु(धि-ऊधन् >)धी^f- धी मीस्
१०, ७, १२; -धीम् काश्रौ ६,
९, ५^०; माश्रौ १, ८, ५, ३५^०; ५,
२, १२, ३१.
अध्युधी-वत् मीस् १०, ७, १७.
अध्यु(धि-ऊर्ण^g)- -र्णन् वाधूश्रौ ४,
७५ : २१; ३३.
अध्यु(धि✓ऊ)ह् (वहने), अध्युहते
आपश्रौ १०, ९, ५; २०, १६, ४;
वाश्रौ ३, ४, ३, २८; हिश्रौ १४,
३, २७; अध्युहति आपश्रौ १,
२५, १२; ११, ८, १; १०, ८;
बौश्रौ १, ६ : १४; ७ : ६; ७; ६,
५ : १५; ७, ६ : १९; ८, १ :
२३; माश्रौ १, २४, ९; २६, ९;
२, १३, ४; वाधूश्रौ ४, ११७ : ४;
वाश्रौ ३, २, ४६; वैश्रौ ४, ९ :
८; हिश्रौ १, ६, २१; जैश्रौ ९ :
११; हिपि ५ : ११; अध्युहन्ते
आपश्रौ ६, ९, १[†]; अध्युहन्ति
हिश्रौ ८, ३, ४०; अध्युहे शांश्रौ
१६, २९, ७; अध्युहामि जैश्रौ ९ :
११; चाञ ३० : १५[†]; अध्युह
काश्रौ २०, २, २२[†]; अध्युहेयुः
द्राश्रौ ३, २, ७; लाश्रौ १, १०, ६.
अध्यु(धि-ऊ)हत्- -हन्तः वैश्रौ १५,
१४ : २; १६, २ : ४.
अध्यु(धि-ऊ)ह्य आपश्रौ १, २३, ६;
११, ८, २; १६, २४, २; १७, ३,
३; ७; वाश्रौ १, ३, १, ८; २, १,

a) विप. (ऋच्)-। उस. । b) पा १, ४, ४६ इत्यत्राऽर्थं परामृष्टः द्र. । c) अभ्युःसृप्य इति पाठः ?
यनि. शोध इति संस्कृतेः सूचिः । d) =अध्युधी- । नाप. (ऊधस उपरितनमांस-। तु. हिश्रौ भाष्यम् प्रभृ.।) । व्यु. ?
अधि-उद्-धि- इत्यवग्रहे सति < ✓ धा इति MW. । e) अध्युधी इति संस्कृता शोधितः पाठः ? यान. शोधः (तु. मूको.,
पांसे. BW. प्रभृ. Garbe। गुरुपूजाकौमुदी ३५ च) । f) सप्र. ऋदिम् <> ऋदिम् इति पांसे. । g) रुपा. आपश्रौ
२२, १०, ११ अमि... उच्चयन्ति इति पांसे. । h) पाठस्तुटितः ? । i) वैप १, परि. च इहत्यं d टि. च द्र. । j) अर्थः ? ।
वैप. ४-प्र-१७

६, २५; वैश्री १८, १७ : ३४;
१९, ४ : १०; १५; हिश्री ११,
७, ३३; १२, १, २८; २२, ४,
१७.

अध्येतव्य-, अध्येतृ-, अध्येय- अधी
(धि ✓इ) द.

अध्येषण-, ंणा- अधी(धि ✓इ) ष् द.

अध्येष्यत्-, अध्येष्यमाण- अधी-
(धि ✓इ) द.

अध्यौ(धि-श्री)दुम्बरि^a- -रि द्राश्री
४, ४, १६; लाश्री २, ४, ९.

?अधि^b- > अ(-?)धि(-?)गु^b- गवे
आश्री ३, २, १०; या ५, ११ ङ्;

- ङाङ् आश्री ३, ३, १;
कौस् ६९, ६^२; -गुः शाश्री

१५, १, २५; आपश्री १४, ७,
५; माश्री ५, २, ८, २५ ङ्; वैश्री

१७, १० : ९; हिश्री ९, ८,
३७; १३, १, २४; अप ४८,

११५; निघ ४, २; या ५, ११^३ ङ्;
मीस् ९, ३, २५^०; -गुम् आश्री

३, २, ११; शाश्री ५, १६, १०;
१४, ५५, १ ङ्; वैश्री १०, १२ :

८; हिश्री ४, ३, ४६; - ङ्गु
ऋप्रा १८, २३; -०गो आश्री

३, ३, ११ ङ्; १०, ८, ७; शाश्री ५,
१७, १० ङ्; या ५, ११^३ ङ्;

- ङाङ् शाश्री ५, १७, १०;
१६, ३, २२; माश्री ५, २, ८, २४;

-गोः आश्री ३, २, १५; नाशि
२, २, १८^d; मीस् ९, ४, ७; २५;

११, ४, ५६; -गौ शाश्री ५, १७,

९; १६, १२, १९; २२, ५.

अधिगु-प्रैष^e- -षः बौश्री २५,
३४ : ४.

अधिगवा(गु-आ)दि- -दि आश्री
३, ३, ४.

†अधि-गो^b- -गावः ऋप्रा १८, २३.

अधियमाण- पा ६, २, १६०.

अध्रुव- -वम् चाअ ३० : १६; -वे
पा ३, ४, ५४.

अध्रुव-त्व- -त्वात् पावा १, ४, २४.

अध्रुवा(व-अ)र्थ- -र्थम् पावा ६, २,
१८६.

अध्रौव्य^f- -व्यस्य पावा १, ४, २४.

अध्व^g- -ध्वे आश्री ३, १०, १०;
१७.

अध्वन्^h- पाठ ४, ११६; पाग ५, १.
२; -ध्वन् ऋप्रा २, ४४ ङ्; -ध्वनः

आश्री; शाश्री ६, १३, २ ङ्;
१६, २, ९^१; पा ५, २, १६; ४,

८५; पावा २, ३, १२; २८;
†ध्वनाम्ⁱ आश्री ५, ३, १४;

काश्री ९, ८, २१; द्राश्री ४, ३,
१; लाश्री २, ३, १; आपमं २,

३, ३२; २१, १८; मागृ १, २२,
११; वागृ ५, ३०; शुअ १,

३५१^k; -ध्वनि आपश्री; -ध्वने
आपश्री १८, १०, २५; आभिगृ

३, १०, ४ : १८, -ध्वभिः आश्री
५, १, १७; -ध्वसु आपश्री ६,

१७, १०; माशि ४, ९; नाशि २,
८, १५; -ध्वा काश्री १५, ३,

१३; अप ४८, ९८; निघ १,

३; या ११, २५ ङ्; १४, ११;

-ध्वानः लाश्री ८, ३, १२;
-ध्वानम् शाश्री; आपश्री २१,

१९, १७^१; माश्री ६, १, १,
१५ ङ्^१; या १, १२; २, २७; २८;

४, १३; १२, २२; १४, ११.

अध्व-काल-निर्माण^m- -णम् पावा
२, ३, २८.

अध्व-गⁿ- पा ३, २, ४८; -गाः
नाशि २, २, ९.

अध्व-गत्^o- -गतः^p आपश्री १६,
३२, ५; वैश्री १८, १६ : ४६;

हिश्री ११, ८, ११.

अध्व-गत- -तः बौश्री २४, २३;
२; -ते बौश्री २४, २२ : १२.

अध्व-गमन^q- -नम् बौश्री २९,
८ : २.

अध्वनीन- पा ५, २, १६; ६, ४,
१६९.

अध्वन्व- पा ५, १, २; २, १६.

†अध्व-पति^b- -ते आश्री ५, ३,
१४^१; काश्री ९, ८, २१^१; आपश्री

१२, १४, ९; वैश्री १४, १३ : २;
जैश्री १३ : ३; १८ : २; आपमं

२, ३, ३२^१; २१, १८^१; मागृ १,
२२, ११^१; वागृ ५, ३०^१.

अध्व-परिमाण^r- -णे पावा ६, १,
७८.

अध्व-मन्त्र^s- -न्त्रान् भाश्री ८, १०,
७.

अध्व-लोष्ट^t- -ष्टम् मागृ १, ७, ९;
१०.

a) अय. वा. क्रि. वि. । b) वैप १, परि. च द्र. । c) अधिगौ इत्यपि पाभे. । d) अध्वग इति कालिषं. । e) नाप. । षस. । f) तस. उप. भाप. < ध्रुव- । g) = अध्वन्- । व्यु. ? । h) व्यु. ? । वैप १, १३० b, परि. च द्र. । i) पाभे. वैप १ परि. अध्वनाम् मा ५, ३३ टि. द्र. । j) पाभे. वैप १ परि. अध्वनः तै ४, १, २, ३ टि. द्र. । k) अध्वन् इति पाठः ? यनि. शोधः (तु. पाभे.) । l) सपा. हिश्री १६, ६, ३८ अवकाशम् इति पाभे. । m) द्रस. > षस. । n) विप. > नाप. (पथिक-) । o) विप. । उस. उप. क्रि. वन्तम् । p) पाभे. वैप. ३ परि. ? अन्वगतः काठ ३९, १ टि. द्र. । q) सस. । r) पाभे. वैप १ परि. द्र. । s) षस. ।

अध्व-शील^a- -लः आपध २, १६, १३; हिघ २, ५, १३.
 अध्व-सुखि^b-त्व- -त्वम् विघ ९२, ३०.
 अध्वा(ध्व-आ)जि^c- -जिः बौश्रौ १०, १२ : ३.
 अध्वा(ध्व-आ)पन्न^d- -न्नः आपध १, ६, ११; हिघ १, २, ३४.
 अध्वर^e- तैत्रा ११, १८; पाग ४, १, ९९^f; -रः ऋशांश्रौ; ऋआपश्रौ १४, २७, ७^g; ऋआपमं १, ५, ७^h; निघ ३, १७; या १, ८ⁱ; -रम् आश्रौ; निघ १, ३; या १, ८^j; ६, २२^k; ऋ८, ६^l; १०, ३६^m; -ऋस्य आश्रौ; भाश्रौ ७, २, ७ⁿ; हिश्रौ ४, १, २९^o; चाअ २ : १^p; ३ : ४^q; या १, ८; -ऋस्य आश्रौ १, ६, ५; शांश्रौ १, ९, २; १४, ५६, २; हिश्रौ २१, २, ४९; -ऋ आश्रौ १, ६, ५^r; शांश्रौ १, ९, २; ७, ९, ३; माश्रौ ५, ३, २७; -ऋणाम् आश्रौ; -ऋणाम् वृदे ८, ९४; -ऋान् कौस् ५, १२; -ऋाय शांश्रौ; भाश्रौ ८, १४, ५^s; -ऋे आश्रौ; आपश्रौ ८, १२, ४^t; हिश्रौ ५, ३, ४५^u; आपमं १, १, ६^v; बौगृ १, ६, २६^w; ४, १, ११^x; या ६, १३^y; ८, २; १८; -रेऽ-रे वृदे ७, ७३; -रेण वाधूश्रौ ४, २३ : ७; २५ : ८; -रेषु आश्रौ ८, ९, २; शंघ १६७;

या ऋ१०, १९^z.
 अध्व(र>)रा^m- -राः बौश्रौ २३, ५ : १६.
 अध्वरायण- पा ४, १, ९९.
 अध्वरिक- पा ४, ३, ७२;
 -काणि काश्रौ २०, ४, १; आपश्रौ १७, २३, ९; बौश्रौ १०, ५९ : १२; १५, ३६ : २२; हिश्रौ १२, ७, ९; -केण बौश्रौ २१, ८ : ३९; २२, ३ : २३; ३०; ९ : २८; वाश्रौ २, १, ३, १९.
 अध्वरिकी- -कीः आपश्रौ; -कीभ्यः वंश्रौ १८, ६ : १२.
 अध्वर-कल्प, ल्पाⁿ- -ल्पा माश्रौ ५, १, ६, ३२; -ल्पाः हिश्रौ १६, ८, २०; -ल्पान् आपश्रौ २१, २४, ११; -ल्पाम् बौश्रौ १२, १६ : २; -ल्पायाम् बौश्रौ २३, २ : १६; २६, ५ : २३; मीस् ११, २, १८^o; -ल्पायै बौश्रौ २४, १० : ८.
 ऋअध्वर-कृत्- -कृत् आपश्रौ १२, ९, २; बौश्रौ ७, ५ : ७; ९, २ : ५.
 अध्वर-गुरुⁿ- -गुरो विघ १, ५६.
 अध्वर-त्व- -त्वम् बौश्रौ १४, ८ : १०.
 अध्वर-दीक्षणी(य>)या^p- -यायाः काश्रौ २०, ४, १; ४.
 अध्वर-दीक्षाⁿ- -क्षायै बौश्रौ २५, ६ : ४; -क्षाम् बौश्रौ २८, ९ : २८.
 अध्वरदीक्षा-प्रायश्चित्तⁿ- -त्तानि

बौश्रौ २८, ९ : १.
 अध्वरदीक्षा(धा-आ)हुतिⁿ-
 -तीः बौश्रौ १५, १३ : ८; २२, ३ : २; -तीनाम् बौश्रौ २२, ३ : १.
 अध्वर-धिष्णियⁿ- -यान् बौश्रौ १०, ५५ : २.
 अध्वर-प्रायश्चित्तⁿ- -त्तम् काश्रौ १६, ७, ७.
 अध्वर-युⁿ- -युः या १, ८.
 अध्वर-समिष्ट-यजुर्-अन्त^r-
 -न्ते काश्रौ १८, ६, १८.
 अध्वरा(र-आ)दि- -दौ शुअ ४, १६१.
 अध्वरा(र-आ)हुति- -तिभिः बौश्रौ ४, ३ : १८; ५, ५ : २८; १०, ५२ : १२; १९, ५ : २; -तीनाम् बौश्रौ २०, २६ : २६.
 ✓ अध्वरीय > ऋअध्वरीयस्-
 -यताम् ऋप्रा ९, १६.
 ✓ अध्वर्यं पा ७, ४, ३९.
 अध्वर्युⁿ- पा; पाउ १, ३७;
 पाग ५, १, १२९; -र्यवः आश्रौ; -ऋर्यवः; -र्यवे आश्रौ; -र्युः आश्रौ; या १, ८ⁱ; ७, ५; -र्युणा शांश्रौ; -र्युभिः जैश्रौका १९; -र्युभ्यः आपश्रौ १३, ५, ११; ६, १५; -र्युभ्याम् काश्रौ १०, २, २६; १५, ८, २३; ९, ५; -र्युम् आश्रौ; -र्युषु भाश्रौ ३, १५, ६; हिश्रौ १०, ८, ५; जैश्रौका ४६; -र्युं गांश्रौ; -ऋर्युं शांश्रौ १, ६,

a) नाप. (अध्वग-). बस. यद्वा उत. [पात्रा ३, २, १]। b) विप.। सम.। c) भाप. (अध्व-गमन-). सस. उप. <

✓ अज्। d) द्वितीयासमासः। e) वैप १, परि. च द्र.। f) व्यप. (ऋषि-विशेष-). g) पाभे. वैप १ परि. अध्वरः तै ३, १, ९, ३ टि. द्र.। h) पाभे. वैप २, ३खं. अर्यमा मंत्रा १, २, ३ टि. द्र.। i) सपा. सौम्यस्य अध्वरस्य इत्यत्र वैश्रौ १०, १ : १२ सौम्याध्वरस्य इति पाभे.। j) पाभे. वैप १ परि. अध्वरा मा २१, ४७ टि. द्र.। k) पाभे. वैप १ परि. अध्वरः मा २, ८ टि. द्र.। l) पाभे. वैप १ परि. अध्वरम् शौ १४, १, ४६ टि. द्र.। m) विप. (आहुति-). तस्येदमीयः अण् प्र.। n) षस.। o) अध्वरकल्पेष्टौ इति प्रयासं.। p) नाप. (इष्टि-विशेष-). सस.। q) = अध्वर्यु-। r) सस. > कस. > षस.।

३१^०; ७, १०, १२; आपश्री २१, ७, १५; बौश्री ७, १६ : ३६६; १५, ३५ : १; १६, ५ : ४; हिश्री ८, ८, १४६; १६, ३, ३४; -र्युन् आपश्री १०, १, ९; हिश्री १२, ६, ३; -०र्यो आपश्री २४, १२, ७^०; या ४, १६; -०र्यो ३ शांश्री १०, १३, २७; १४-१८, १; आपश्री २०, ६, ११; माश्री २, ३, २, २५; हिश्री १४, २, १४; -र्यो ३३ आपश्री ५, १, १४; -र्योः आपश्री १, ३, २३; २४^०; -र्योः लाश्री ९, २, १३^२.

आध्वर्यव^० पा ४, ३, १२३; -वः बौश्री २१, ५ : २५; -वम् काश्री; -वाः बौश्री २६, १३ : १४; -वात् काश्री; -वे आश्री; या ७, ३; -वेण बौश्री २, ३ : १८^०; निस् १०, ८ : २०; -वेषु आपश्री १४, ८, ३; वृदे ७, १०५; -वेः भाश्री २, ७, ६.

आध्वर्यव-पोत्रीय^०-
-ये काश्री २४, ४, ४२.

आध्वर्यु-कषाय- -ययोः पा ६, २, १०.

आध्वर्यु-क्रतु^०- -तुः पा २, ४, ४.

आध्वर्यु-गृहपति^०- -तिभ्याम् आश्री ५, ८, ५.

आध्वर्यु-तस् (:) आश्री ५, ५, १३; बौश्री १४, ४ : २८; १६, १० : ४.

आध्वर्यु-द्रोण^०- -णे आपश्री १९, ६, ९.

आध्वर्यु-पथ^०- -थः बौश्री १६, ९ : ८^०; -थे आश्री ५, ३, १३; द्राश्री २, १, २९; लाश्री १, ५, २२; -थेन आश्री ८, १३, २४; बौश्री १६, ९ : ७; ८^०; वैताश्री ३४, २.

आध्वर्यु-पात्र^०- -त्रम् आपश्री १२, २१, २१; माश्री २, ३, १, १५; -त्रे काठश्री १३६; माश्री २, ३, ८, ८; ४, २, १७^०; ६, ६; ४, ३, १७.

आध्वर्यु-पुरुष^०- -षः आपश्री १०, २०, १७; -षाः बौश्री २, ३ : ९.

आध्वर्यु-प्रतिप्रस्थानु^०- -तारौ वैश्री ८, ९ : ५; १७, १० : ३, ४.

आध्वर्यु-प्रतिप्रस्थानु-प्रस्तोत्रु- (तृ-उ) द्वातृ-प्रतिहर्तृ-सुन्वत्^०-
-न्वन्तः काश्री ९, ६, २५.

आध्वर्यु-प्रत्यय^०- -यः शांश्री १, १, १०; -यम् आश्री ८, १३, ३४.

आध्वर्यु-प्रथम^०- -माः आपश्री १५, ८, १४; भाश्री ११, ८, १८; माश्री ४, २, २८; वैश्री १५, १९ : ३; -मान् वैश्री १२, १ : ४-५.

आध्वर्यु-प्रभृति- -तिभ्यः वैश्री ५, ५ : १९.

आध्वर्यु-प्रमुख^०- -खाः वैश्री १७, १७ : ४^०.

आध्वर्यु-प्रवर^०- -रे आपश्री ४, ९, ६; वैश्री ६, ५ : ७; हिश्री ६, ३, २^२.

आध्वर्यु-प्रस्तोतृ-प्रतिहर्तृ (तृ-उ) द्वातृ-ब्रह्म-यजमान-प्रतिप्रस्था-

तृ^०- -तारः वैश्री १५, १९ : १; २.

आध्वर्यु-प्रेषित^०- -तः आश्री ३, २, ४; द्राश्री २, २, १; लाश्री १, ६, १.

आध्वर्यु-बहूच^०- -चानाम् द्राश्री ९, ४, १८; -चैः द्राश्री ८, ४, २८; लाश्री ४, ८, २३; -चौ द्राश्री १२, २, ३३; लाश्री ४, ११, ३.

आध्वर्यु-ब्रह्मो (ह्य-उ) द्वातृ-होतृ-क्षत्^०- -त्तारः काश्री २०, ६, १८.

आध्वर्यु-भक्ष^०- -क्षः वैश्री १५, ३१ : ७; -क्षम् बौश्री २६, १४ : ४.

आध्वर्यु-मार्ग^०- -र्गेण जैश्रीका १५८.

आध्वर्यु-मुख^०- -खाः आश्री ५, २, ६; ८, १३, २३.

आध्वर्यु-मुख्य^०- -ख्यान् वाश्री ३, २, १, १३.

आध्वर्यु-मैत्रावरुण^०- -गौ वैश्री १०, २१ : ६.

आध्वर्यु-यजमान^०- -नयोः काश्री १६, ४, ३१; -नौ आश्री १, १२, ३५; काश्री ८, ५, १३; ९, ३, २; १४, ४, १५; २०, २, ९; १९; काठश्री ९५; वाश्री १, २, ४, ११; वैश्री ५, ४ : ३; ६, १२ : ११; ७, १३ : १; २; १०, १२ : ९; १२, २० : ८; १५, ९ : १२; १८, १४ : ३५.

आध्वर्यु-यजमान-प्रतिप्रस्थात्र- (तृ-अ) मीतु (दृ-उ) न्नेतृ^०- -तारः

a) पाप्मे. वैप १ परि. अध्वर्यो पै १९, ४६, ४ टि. द. । b) विप. (आध्वर्यु-संबन्धिन-] मन्त्र-, वेद- प्रभृ.), नाप. (यजुर्वेद-) भाप. (अध्वर्यु-कर्मन्-) च । c) दस. । d) मलो. कस. । e) षस. । f) विप. (ऋत्विज्-) । बस. । g) *ख्याः इति पाठः? यनि. शोधः । h) षस. उप. = गोत्रप्रमुख-ऋषिविशेष- । i) तृस. ।

काश्री १०,४,२.
 अध्वर्यु-वत् वैश्री १७,९ : ६.
 अध्वर्यु-वर्जम् वैश्री १५,२० :
 ५.
 अध्वर्यु-विकार^१- रात् काश्री
 ५,५,२५.
 अध्वर्यु-संचर^२- रेण काश्री
 ३,४,३.
 अध्वर्यु-संग्रह^३- षम् द्राश्री
 १,२,२४; १२,१,१४; लाश्री १,
 २,१८; ४,९,८.
 अध्वर्यु-होतृ^४- नृभ्याम् अप
 २३,११,१.
 अध्वर्या(र्यु-आ)दि- दीन्
 काश्री १२, २, १६; -दीनाम्
 शुभ ३,३२.
 अध्वर्यादि-वश^५- शात्
 जैश्रीका १५९.
 अध्वर्या(र्यु-आ) सादित^६-
 -तान् वैताश्री २३,१४.
 अ-ध्वर्त्य^७- न्याः बौश्री १४, ८ :
 ९.
 अ-ध्वर्य^८- र्यः माश्री २,३,८,४^०.
 अध्वर्यु- प्रभृ. अध्वर- द्र.
 अ-ध्वाद्^९- ध्वात् माश्री २,५,५,
 २०.
 अन्^{१०} पाधा. अदा. पर. दिवा. आत्म.
 प्राणने; अनिति वाधूश्री ४,११ :
 २; निघ २,१४; या ७,२६.
 अन^{११}->अन-वत्->वत्-त्व-

-त्वम् या १०,३४.
 अनन्^{१२}- नाय या २,५.
 अनिल^{१३}- पाउ १,५४; -लः अप
 ४३,५,६^१; ऋअ २,१०,१६८^१;
 वृदे ८,७१^१; आशि १,३; -लम्
 अप ४३, ५, ३४; शंघ ११६ :
 ६३; शुभ ४,१२५^१.
 अनिला(ल-अ)नल^{१४}- लौ शंघ
 ४५७ : १३.
 अनिला(ल-अ)नल-यमा (म-
 आ)मन^{१५}- त्मनः अप ६३,१,२.
 अनिला (ल-अ) नले (ल-इ)
 न्द्र(न्दु-अ)र्क-स्त्री-गुरु-ब्राह्मण^{१६}-
 -णानाम् विध ६०,२२.
 अनिला(ल-अ)शन^{१७}- नः बौध
 ४,५,२२.
 अनु^{१८}- नवः बौश्री १३, १२ : ९;
 अप ४८, ७८; निघ २, ३; साञ्च
 १,४४०; उनिसू ५ : २०.
 अनन,ना- इदम्- द्र.
 अन-अंश^{१९}- शाः वाध १७,५२.
 अन-अंशु^{२०}- श्चुः बौश्री १४, ६ :
 २०.
 अन-अ-काम-मार^{२१}- रम् गोगु ४,
 ६,१; द्रागु ४,१,१८.
 अन-नकार^{२२}- रे पावा ७,१,५८.
 अन-अकारा(र-अ)न्त^{२३}- न्तेन पावा
 ७,१,३.
 अनकारान्त-त्व- न्यात् पावा ७,
 १, ३.

अ-नकारा (र-अ)न्त-प्रतिषेधा-
 (ध^०-अ)र्थ- र्थम् पावा ६,
 ४,१३३.
 अन-अक्त,का^{२४}- कम् हिश्री ४, २,
 ५०; -कया माश्री १,८,३,१९;
 -क्ताः माश्री ३,१,३५; -क्ताम्
 माश्री १,५,४, १९; ४,३, ३३;
 वाश्री १,४,४,५; २,१,३,२३.
 अनक्त-तस् (ः) वाश्री १,६,५,२०.
 अन-नक्ता(क-अ)शन^{२५}- नम् आमिगु
 ३,१०,३ : ३.
 अन-नक्ताशिन्^{२६}- शी आपध १,२७,
 ७; हिध १,७,३२.
 अन-अक्ष^{२७}- नक् सु ५,५.
 अन-अक्ष^{२८}- क्षे पा ५,४,७४.
 अन-अ(क्ष>)क्षा^{२९}- क्षा वैताश्री
 ३८,६.
 अन-अक्ष-सङ्ग^{३०}- ऋम् आपश्री ७,
 २, ६; बौश्री ४, १ : २१;
 भाश्री ७,१,७; माश्री १, ८, १,
 ९; वैश्री १०,१ : १७; हिश्री ४,
 १, २२.
 अन-अक्ष-स्तम्भ^{३१}- म्भम् काश्री
 ६,१,१४.
 अन-अक्ष^{३२}- क्षगौ मागु २,२,१४.
 अन-अक्षण्या माश्री १,३,२,६.
 अनख- खेन बौगु २,११,३७; बौपि
 २, ९, १९; ११, ७; जैगु १,
 २ : २.
 अन-ख-च्छिन्न^{३३}- क्षे बौश्री १,४ :

a) षस.। b) द्वस.। c) तृस.। d) तस.। e) पाभे. वैप १ परि. अध्वरः तै ३,१,९,३^२ टि. द.।
 f) व्यु. ? *अध्वर- (<√*अध् = √अद्>अध्वान्- [भोजन-, अन्न-]) + अद्- इति (तु. सस्थ. टि. अद्वाद्-,
 एतदनु वैप १ शोधयश् च)। g) शौच ४,३९ या ११,४७^३ पा ७,२,७६; ८,४,१९-२१ पावा ८,४,२० इत्यत्राऽयं
 परामृष्टः द्र.। h) भाप.। अन्न^० इति केचित् [तु. दु.]। i) वैप १ द्र.। j) व्यप. (ऋषि-विशेष- [ऋगु. वृदे.])
 वैप. १, परि. च द्र.। k) धा. अर्थः ?। l) विप.। द्वस.>बस.। m) विप.। बस.। n) विप.।
 बस.उप. तस.>तृस.। o) तस.>षस.। p) तस. > सस.। q) विप.। तस. उप. उस.। r) तस.
 उप. =रथाङ्ग-। s) बस. वा. क्वि.। t) तस. वा. क्वि.। u) विप. (आज्यभाग-)। तस. उप. =कुटिल-
 (तु. वैप १)। v) विप. (पवित्र-)। तस. उप. तृस.।

१६; २४, २५: ८.	आश्रौ ३, १०, १३; -मीनाम्	६, ८, ६.
अ-नग्न ^a - -मः बौश्रौ १८, ४४: १५;	आश्रौ ४, १, १०; मीस् ६, ६,	अन्-अग्न्याधेय ^b - -यम् जैश्रौ २२:
हिग्य १, ११, ८१; शंघ ९९.	२७; -म्री आपध १, ११, ३४;	२२.
अनग्न-स्व- -स्वाय जैश्रौ ६: १५.	हिध १, ३, ८५.	अन्-अघ.घा ¹ - -०घ विध १, ५५;
अ-नग्नंभावुक ^a - -कम् वाधूश्रौ ३,	अन्-अग्निक ^b - -कः गौपि २, ३, ३५;	-घाभ्यः भाशि ३८१; -घाम्
९: ११.	-कान् बौशु ५: ४; -कैः कावृउ	गोय ४, ४, २८.
१अन्-अग्नि ^b - -ग्निः अप ७१, ८, २;	४४: १३.	अन्-अङ्ग-ग ^m - -गम् कप्र १, ७, ७.
-ग्निना अप ७२ ^१ , २०, २; २३,	अ-नग्निका ^b - -काः वाध ५, २; -काम्	१अन्-अङ्ग ^b - -ङ्गम् काश्रौ ४, १, २९;
१३; -म्री काश्रौ २६, ७, ११;	वायु १०, ८; जैग्य १, २०: २.	आपश्रौ २४, २, ३६; लाश्रौ १०,
हिश्रौ ३, ८, २२; आग्य १, १, २;	अन्-अग्नि-चय ^b - -ये बौश्रौ २६,	३, १; ७; निस् ८, १३: ४; ६;
आग्निग्य २, ५, २: ३ ^१ ; आपग्य २०,	१२: १६.	मीस् ४, ४, १९; १०, ८, ५८.
१२; बौग्य ३, ६, १ ^३ ; भाग्य २, १०:	अन्-अग्नि-चित् ¹ - -चित्तः काश्रौ	२अन्-अङ्ग ^b - -ङ्गः आपध १, २२, ७;
१४; हिग्य २, ९, ८; जैग्य २, ७:	२१, ४, ११.	हिध १, ६, ७; -ङ्गानि अप ७० ^२ ,
३ ^२ ; कौस् ४, १६; ९३, ३७;	अन्-अग्नि-चि(त्या >)त्य ^b - -त्यः	१०, ३; -ङ्गे मीस् १०, ३, ५.
१३०, १; अप ६४, ३, ५; या १,	बौश्रौ १६, २: १२; -त्यम् बौश्रौ	३अनङ्ग ⁿ - > आनङ्गि- -ङ्गिः बौश्रौप्र
१८१; शुभा ४, ७०; कौशि ५८.	१६, १३: १२; वाश्रौ २, २, ५,	२७: ८.
अनग्नि-ज ^o - -जाः अप ७० ^२ , २०, ३.	२२; -त्यं काश्रौ ८, ३, ३.	अन्-अङ्ग-क्षत्र-धर्म-त्रि-पू(र्व >)
अनग्नि-ज्वलन ^d - -ने अप ७१ १, ३.	अन्-अग्नि-चित्या ^b - -त्या द्राश्रौ १४,	र्वा ^o - -र्वा पावा ४, २, ६०.
अनग्निज्वलन-स्फोट-धूम-रेष्व-	४, १३; लाश्रौ ५, ८, १२.	अन्-अङ्ग-त्व- -त्वम् मीस् ४, ४, १;
(गु-अ)निला(ल-आ)हत ^e -	१अन्-अग्नि-दग्ध ^a - -ग्धाः आश्रौ	-स्वात् मीस् ६, ३, २०; १०, १, ५.
-तम् अप ६४, ९, ३.	२, १९, २२.	?अनङ्गन्धि अप्राय २, ५.
अनग्न्यु(मि-उष्ण >)ष्णा ^f -	अन्-अग्नि-दूषित ^b - -ताः कप्र ३, ८,	अन्-अङ्ग-मू-एजय ^b - पाग ६, २,
-ष्णाभिः विध ६२, ५.	१३.	१६०.
२अन्-अग्नि ^b - -नयः वैग्य ५, ८:	अन्-अग्नि-पक-वृत्ति ¹ - -त्तिः	अन्-अङ्ग-वेष ^b - -यम् आग्निग्य ३,
४; वाध ३, १; ५, १०; -ग्निः	बौग्य ३, ३, १६; आपध २, १८, ५;	१०, ३: ३.
माश्रौ ६, १, १, ३; वाश्रौ २, १, १,	हिध २, ५, ५७.	अन्-अङ्ग-स्पृ(ष्ट >)ष्टा ^g - -ष्टाः वाध
२; आग्निग्य ३, १०, १: ६; बौपि	अन्-अग्नि-मत् ^b - -मान् कप्र २, ८,	३, ३७.
३, ५, २; अप्राय ५, ४; अप ६७,	१५.	अन्-अङ्ग-हीन ^o - -नम् भाश्रौ ७, ९,
४, १; वाध ९, ११; आपध २,	१अन्-अग्नि-ष्वा(<स्वा)त्त ^a -	७; -नान् आपश्रौ १०, १, १;
२१, १०; बौध २, १०, ६३; वैध	-त्ताः आपश्रौ ८, १५, १७; वैश्रौ	भाश्रौ १०, १, १.
२, ५, ८; ३, ५, १३; ६, ६; हिध २,	९, ८: ११.	अन्-अङ्गुष्ठ ^b - -ष्ठम् बौध २, ८, १७;
५, ११९; या ७, ३१; -ग्निना	अन्-अग्नि-संयोग ^b - -गात् मीस्	गौध १, ५२.

a) वैप १, परि. च द्र. । b) तस. । c) विप. (धूम-). पंस. वा सस. वा । d) सस. । e) विप. । दस. > तस. । f) विप. (२अप-). तस. । g) विप. । बस. । h) नाप. (संजातव्यञ्जना-कन्या-). तस. । i) विप. । तस. उप. उस. । j) विप. । तस. उप. तस. > बस. । k) तस. उप. षस. । l) विप. (विष्णु- [विध.]), नाप. (देवता-विशेष- [भाशि. गोय.]). बंस. । m) विप. ([ग्रन्थेर्बहिर्निर्गत-] नेत्र-, मन्थन-रज्जु-). तस. । n) व्यप. (गोत्रप्रवर्तक-ऋषिविशेष-). व्यु. ? । o) विप. (विया-). तस. उप. दस. > बस. । आङ्गक्षत्रधर्मसंसर्गत्रि^o इति पाका. । p) विप. (व्रत-). बस. उप. =शरीरप्रसाधन- । q) विप. । तस. > तस. ।

अन्-अजका-^०जिका- पा ७,३,४७.
 अन्-अजान(त >)ती- -त्यै कौसु
 ६१,७.
 अन्-अजिरादि- -दीनाम् पा ६, ३,
 ११८.
 अ-नञ्^०- -नञ् पा २,१,६०;४,१९;
 पावा २, १, ६०; -नञः पा ६,
 ४,१२७; पावा ७,१,३७.
 अ-नञ्-पूर्व^०- -र्धे पा ७,१, ३७.
 अ-नञ्-समास^०- -से पा ६, १,
 १२८.
 १अनङुह^०- [>आनङुह- (>आन-
 ङुह्यायन-, आनङुह्यायनि^०-)]
 यथाक्रमम् पाग. पा ४, १, १०५;
 ११०;२,८०.
 २अनङुह- अनस- द्र.
 अन्-अणु^०- -णुःआपथो ७, ३, २; -णुम्
 माथो १,८,१,१४; वैथो १०,२;
 ७; -णून् माथो ५,२,१२,४.
 अ-नन्^०- -त ऋपा ४,३४.
 अ-ननि^०- -तौ शुप्रा ५, १४.
 अन्-अतिकृष्ण- -न्गः द्राथो १, १,
 ७; लाथो १,१,७.
 अन्-अतिक्रम^०- -मः काय ४१,४.
 अन्-अतिक्रमण^०- -णम् काथो ५,
 ९,५.
 अन्-अतिक्रम्य बौथो २८,१२ : २;
 वाथो १, ३,५,७.
 अन्-अतिक्रामत्- -मन् माथो २,४,
 ४,१५; गौध २३, २६.
 अन्-अतिशारयत्- -यन् आपथो
 १,२५,७; हिथो १,६,४८.
 अन्-अतिग्राह्य- -ह्यः बौथो १६,

३ : २५.
 अन्-अतिचिक्रमिषत्- -षन् निस्
 १०,४ : ४.
 अन्-अतिथि^०- -थिः कौय ३,१०,३५;
 वांय २,१६,३; गौध ५,४३.
 अन्-अतिदूर^०- -रे आपथ १, ६, २१;
 हिथ १,२,४५.
 १अन्-अतिदृश्^०- -क्षम् बौथो १,
 १३ : १९; माथो २, ८, १३;
 वैथो ५,६ : २; हिथो १,८,४.
 अन्-अतिदृश्य^०- -श्यम् आपथो
 २,९,२.
 अन्-अतिदेश^०- -शे आथो ९,१,३.
 अन(न्-अ)तिनयत्- -यन् शार्थो
 १३,६,१.
 अन्-अतिनीच^०- -चम् वैथो ४,
 १० : ७.
 अन्-अतिपात^०- > √अनतिपाति,
 अनतिपातयेत् बौथो २०,११:२३
 अनतिपातयन्- -यन् द्राथो
 १०,२,१३; लाथो ३,१०,१२.
 अन्-अतिपृथु^०- -थुम् काथो २,५,२०.
 अन्-अतिप्रणीत- -तस्य गोय ३, ७,
 १६; द्राय ३,२,६.
 अनतिप्रणीत-चरन्- -रताम् आथो
 ९,२,१८^६.
 अनतिप्रणीत-चर्या^०- -र्यायाम्
 आथो २,१९,३१.
 अन्-अतिप्रत्याहृत- -तः निवृ ३,
 ११ : २२.
 अन्-अतिभोग^०- -गः गौध १२,३६.
 अन्-अतिरात्र^०- -त्रः वाथो ३,४,१,
 ४६^०; लाथो ८,१२, ९; -त्रम्

बौथो २६, १२ : ६; -त्रस्य
 लाथो ८,१,१७; निस् १०, ९ :
 २९; -त्रे वैताथो ४०,१०.
 अन्-अतिरिक्त- -क्तम् बौथो ४,
 ४ : ३५; ६,२७ : १०.
 अन्-अतिरिक्ता(क्त-अ)ङ्ग^०- -ङ्गः
 द्राथो १, १,७; लाथो १, १,७.
 अन्-अतिरिच्यमान- -नाः बौथो
 १६,११ : १२.
 अन्-अतिशङ्क्य-त्व- -त्वात् मीस्
 ४,१,३.
 अन्-अतिशस्त- -स्ते आथो ७,
 १२,२.
 अन्-अतिश्वेत- -तः द्राथो १,१,
 ७; लाथो १,१,७.
 अन्-अतिसर्पत्- -र्पन्तौ बौथो १६,
 ८ : ११.
 अन्-अतिसृष्ट,प्रा- -ष्टः आपथ २,
 ७,१५; हिथ २, २, ३४; -ष्टाम्
 बोध २,२,२४.
 अन्-अतिहरत्- -रन् आपथो ४,
 १४,६; माथो १,३,४,१६.
 अन्-अतीकाश^०- -शम् कौसु ३७, ५.
 अन्-अतीत,ता^०- -तः आय १, १९,
 ५; वांय १,३,७; २,१,६; गोय
 २,१०,३; द्राय २,४,२; -ताम्
 बोध २,४,१५.
 अन्-अन्य(ति-अ)क्षरो(र-उ)
 पथ^०- -धः आथो १,५,१०.
 अन्-अत्यन्त^०- -न्ताः निस् २,१:३४.
 अन्-अत्यन्त-गत^०- -तः या १२,४०.
 अन्-अत्यन्त-गति^०- -तौ पा, पावा
 ५,४,४.

a) बस. उप. =न [निषेधे]। b) तस. उप. बस.। c) तस.। d) व्यप.। e) =देश-विशेष-?।
 पाका. अन^० इति। f) विप.। बस.। g) विप. (रऊष्मन्-)। तस. उप. =मूर्धन्यमापन्न-। h) तस. उप. =पारिभाषिक-
 संज्ञा-विशेष- (मूर्धन्यापति-).। i) तस. वा. क्वि.। j) वैप १, परि. च द्र.। सपा. °दृश्- <> °दृश्य-
 इति पाभे.। k) अनतिप्रणीय चरताम् इति पूसं.। l) षस.। m) अनतिरात्रि इति पाठः? यनि. शेषः।
 n) षस. वा. क्वि.। उप.=छिद्र-। o) विप. (विसर्जनीय-). बस.>बस.। अयक्षर- (=अवर्ण-).

अन्-अत्यन्त-संयोगा (ग-अ)- र्थ ^१ - र्थम् पावा २, १, २९.	२, ४, १३.	अन्-अधीयान ^१ - नः वंताश्रौ ३४, ५५; निसू २, १ : २६; वैशू ६, ११ : ७; कौसू १३९, १३; वाध ३, ११; आपध २, १०, ९; बौध १, १, ११; हिध २, ४, ९; -नाः वाध ३, ४; -नान् विध ८२, २४; -नाय आपध २, ४, १६; हिध २, १, ६९.
अन्-अत्याक्रम्य बौश्रौ २१, १३ : ३१.	अन्-अधिकार ^१ - रः मीसू ३, ८, ३१; ६, ६, २६; -रात् आश्रौ २, ६, २०; पावा २, ३, ३२; ३, ३, १४५; मीसू ३, ७, ३५; ४, २, १३; ६, ६, ८; -रे पावा ३, १, ९१; पावा ४, १, १५; ६, ४, १६; ८, २, १.	अन्-अध्ययन ^१ - नम् आपध २, ५, १; हिध २, १, ८१; -नानि कौसू १४१, २६ ^६ .
अन्-अत्याधान- ने पा १, ४, ७५.	अन्-अधिकृत ^१ - तः आपश्रौ १२, ७, १५.	अन्-अध्यवसित ^१ - तम् बौश्रौ ६, १० : १२.
अन्-अत्या(ति-आ)श ^१ - नाः आपध १, २३, ६; गौध ५, ३८; हिध १, ६, १४.	अन्-अधिगच्छत् - च्छन् आश्रौ २, १४, २६; शाश्रौ १, १७, ५; १८; बौश्रौ २४, १ : १४.	अन्-अध्याय ^१ - यः आपश्रौ २४, १, ३७; जैश्रौ १ : ९; कौशू ३, ९, ५०; शाशू ४, ७, ५५; काशू ९, ५; ११; बौशू ३, १, १६; २०; कौसू १४१, १२; ३४; बौध १, ११, ३९; वैध २, ११, ८; हिध १, ३, ७; ११; १६; २३; ४७; ५५; ६१; ७७; ४, ९; ८, ५४; वाध १३, १६; आपध १, ९, ७; ११; १६; २२; १०, २०; २८; ११, ४; २७; १२, ९; ३२, १२; १५; बौध १, ११, २२; २४; ३८; ५७; -यम् वैध २, ११, ९; १२, १; -याः माशू १, ४, ६; वाशू ८, ६; वाध १३, ८; शंध ४६२; -यान् बौश्रौ ९, २० : १६; कौशू २, ७, २३; शाशू २, १२, ९; शौशू ३, ४, ३३; कौसू १४१, ६; -याय वैशू २, १२ : ८; -ये शंध ३७७,
अन्-अत्यु(ति-उ)द्य ^१ - द्यम् अप्रा २, ४, १६.	अन्-अधिगम ^१ - मे आश्रौ २, १४, २७; ६, ८, ५.	
अन्-अदिति - तेः पा ८, ३, ५०.	अन्-अधिगम्यमान ^१ - ने शाश्रौ १३, ६, ३.	
अन्-अद्धक ^१ - कम् वाधुश्रौ २, २० : ६.	अन्-अधिशाल्य ^१ - ख्यम् माश्रौ १, ८, १, ४; वाश्रौ १, ६, १, ७.	
अन्-अद्धा-पुरुष ^१ - षम् काश्रौ १६, २, १३; ३, १२.	अन्-अधिश्चय ^१ - यम् आश्रौ २, ३, ४.	
अन्-अद्यतन ^१ - ने पा ३, २, १११; ३, १५; ५, ३, २१; पावा ३, २, ११०; १११; ३, ३; १३२.	अन्-अधिभ्रयण ^१ - णम् काश्रौ ४, १५, २४.	
अनद्यतन-परोक्ष ^१ - क्षयोः पावा ३, २, १०८.	अन्-अधिश्चित, ता ^१ - तम् भाश्रौ ९, ६, १; -ताभिः शंध ५६; -ते वैश्रौ २०, ११ : १२?!	
अनद्यतन-वत् पा ३, ३, १३५, > वत्-प्रतिषेध- धे पावा ३, ३, १३५.	अन्-अधिस्तृणत् ^१ - णन् माश्रौ १, २, ६, २८.	
अन्-अधर ^१ - रान् आश्रौ ८, १३, २२.	अन्-अधीतपूर्व ^१ - र्वाणाम् आश्रौ ८, १४, २१.	
अन्-अधस ^१ - धः आपश्रौ १, ४, १; ५, २; ४; ६, २; १४, ५; बौश्रौ १, २ : २३; भाश्रौ १, ४, १९; ५, १५; १५, २; वाश्रौ १, २, १, २९; वैश्रौ ३, ४ : २१; २०, २३ : ४; हिश्रौ १, २, ५५; भाशि ४८.	अन्-अधीतवेद् ^१ - दः विध २८, ३६.	
अन्-अधिकरणवाचिन् ^१ - शि पा	अन्-अधीत्य वाध ३, २; शंध ४४.	

a) तस. > कस. > तस. । b) तस. उप. = अयज्ञान- । c) वैप १, परि. च द्र. । d) = अस्त्या-
कृत-, अनिश्चित- । तस. वा. क्वि. । उप. व्यु. ? (अद्धा √ कृ > कर्मणि) *अद्धा-कृत- > नैप्र. यनि.
(तु. संस्कृतुः टि.; वैशू. तत्रैव परकीय उल्लेखः < √ नह् > नद्ध- इति) । e) = अवास्त-
विक-पुरुष-, मिथ्या-पुरुष- । तस. (तु. वैप २, ३खं.) । f) तस. । g) दस. । h) विप. । तस. ।
i) तस. वा. क्वि. । j) अनभिश्चिते इति पाठः ? यनि. शोधः । k) अनध्यानि इति पाठः ? यनि. शोधः
(तु. संस्कृतुः टि.) ।

२३; आपध १, ५, २५; ११, २४; बौध ३, ९, १०; हिध १, २, २५; ३, ७४; -येषु जैगृ २, ८ : १८; शंघ १४३; विध ३०, २८; चव्यू ३ : २; - [†] यौ आगृ ३, ४, ७; जैगृ २, ८ : २८.	४१; ३१, ६; -ताम् विध ५, १३९.	अन्-अनुविद्य वाधूथौ ४, १८ : २३; २५.
अनध्याय-क ^१ - कानि शागृ ६, १, ३.	अन्-अनुनासिक ^१ - कम् ऋप्रा १०, १०; -काः ऋप्रा ६, २९; -कान् अप ४७, १, ६.	[†] अन्-अनु-व्रत, ता ^१ - तम् आपधौ १, ९, ९ ^म ; -ता ^म बौधौ २, १० : ७; आपमं २, १९, १; ३; ५; आमिगृ ३, १, १ : २०; बौगृ २, ११, २८; हिगृ २, १० : ७.
अनध्याय-देवता ^१ - ताथै वैगृ २, १२ : ९.	[†] अन्-अनुपूर्व ^१ - र्वम् कौसू १२४, २; ३.	अन्-अनुशस्त ^१ - स्तम् बौधौ १४, २७ : ११.
अनध्याय-वर्जम् विध ३०, ३१.	अन्-अनुबन्धक ^१ - कस्य पावा २, ४, ४९.	अन्-अनुष्टुभ ^१ - ष्टुभम् बौधौ १६, ६ : ८.
अनध्याय-विधान-श्रवण ^१ - गणात् कप्र ३, १०, ११.	अननुबन्धक-ग्रहण ^१ - णे पावा ४, १, १५.	अन्-अनुसृजत् - जन् शांश्रौ १७, १३, १२; माश्रौ १, ३, ३, ९; ५, ७; २, १, ३, ४४ ^२ .
अनध्याया(य-अ)धीत ^१ - तम् विध ३०, २९.	अन्-अनुभूतिज ^१ - जम् निस् २, ५ : २३; १०, ११ : १४.	अन्-अनुस्वार-संयुक्त ^१ - क्तम् तैप्रा २२, १५.
अन्-अध्या(स>)सा ^१ - सा लाश्रौ ६, ३, १८; -साम् निस् ६, १३ : २०; ७, १० : ४.	अन्-अनु(, नू)याज, जा ^१ - जः वैश्रौ १२, १५ : ७; वागृ १, ४; -जम् आपधौ १०, २१, १०; तैप्रा ३, ७; -जाः काश्रौ ६, १०, २१; कौगृ १, ६, ५; शांश्रौ १, १०, ५; -जासु माश्रौ २, १, ५, १७; -जे आपधौ १०, २१, ७.	अन्-अनूक - क्तम् आपध १, ११, ३५; हिध १, ३, ८६.
अन्-अध्या(स्य>)स्या ^१ - स्यायाम् निस् ६, ३ : २२ ^१ .	अन्-अनुवपट्कार ^१ - राः बौश्रौ २५, २० : १८; -रौ आपधौ १२, २३, ९; १३, ८, २; हिश्रौ ८, ७, २५.	अन्-अनूक्ति ^१ - क्तिभिः काश्रौ २६, २, ४.
अन्-अध्वन् - ध्वनि शुप्रा ४, ८३; पा, पावा २, ३, १२.	अन्-अनुवषट्कृत ^१ - तः बौश्रौ २१, २२ : ६; -ते आश्रौ ६, ११, १३; शांश्रौ १०, १, ११; १८, २०, ५; -तौ बौश्रौ २१, २२ : ७.	अन्-अनूचान - नः लाश्रौ ९, ६, १२; बौगृ १, २, ६३; -नम् बौश्रौ २४, १३ : ७; आपध २, १०, ८; हिध २, ४, ८; -नाः बौश्रौ २; ३ : ३; वाधूथौ ४, १८ : २५, २९.
अन्-अध्वर्यु ^१ - र्युम् कौसू ६२, १६.	अन्-अनुवाक्य ^१ - क्यः वाध ३, १.	अन्-अन्त, न्ता ^१ - न्त विध ९८, ८२; - [†] न्तः कौगृ ५, ७, २; आमिगृ ३, ११, २ : ८; -न्तम् आश्रौ २, २, ४ ^प ; ५, १९, ४; शांश्रौ २, ६, ७ ^प ; आपधौ ६, १, ८ ^प ; बौश्रौ ३, ४ : ११ ^प , २४, ३० : १३ ^प ; माश्रौ ६, ७,
अन्-अनङ्गमेजय - पा ६, २, १६०.	अन्-अनुवित्त-यज्ञ ^१ - ज्ञम् वाधूथौ ४, २२ : १५.	
अन्-अनन्तर ^१ - >न्तर-त्व- त्वात् पावा २, १, २; ८, ३, ७९.	अन्-अनुवित्ता(त-अ)ग्नि ^१ - ग्निम् वाधूथौ ४, ७५ : ४३.	
अन्-अ-नियोग-पूर्व ^१ - र्वम् आपध १, १९, १२; हिध १, ५, ११४.		
अन्-अनुकू(ल>)ला ^१ - लाम् शंघ ८२.		
अन्-अनुचर ^१ - रः गोगृ ३, ५, ३६.		
अन्-अनुज्ञात, ता ^१ - तः विध ३०,		

a) स्वार्थे कः प्र. । b) षस. । c) सस. । d) विप. । बस. । e) तस. । f) अनाध्यास्यायाम् इति पाठश्चिन्त्यः (तु. निस् ६, ३ : १८) । g) बस. वा. । क्वि. । h) विप. (नारी-) । तस. । i) विप. । तस. । j) तस. । -तम् इति वा. क्वि. । k) वैप ६, परि. च द्र. । l) विप. । तस. उप. बस. । m) सपा. । तम् <> ता <> शांश्रौ ३, १३, ५ अपतिस्रता इति पाभे. । n) विप. । तस. उप. तृस. । o) बप्रा. । विप. व्यप. च । बस. । p) पाभे. पृ २६ u टि. द्र. ।

७ ऋ; हिश्रौ ३, ७, ७८^a; आपमं २, १५, १४^b; आपध २, १७, १७^b; या १४, ३६; -न्ताः लुसू ३, १६; १; -न्तात् पावा ५, १, ४८; -न्तान् आपध २, २६, १; हिध २, ५, १९६; -न्ताभिः ऋश्रौ २, १०; ३; आपमं २, १९, ४^c; -न्ताम् आश्रौ ११, ४, ८; आपश्रौ २२, १३, ४; २३, ६, ९; -न्ताय हिपि १७ : २२ ऋ; -न्ते अप ४८, ६०; -न्तेन निसू ९, ११ : २१. आनन्त्य- पा ५, ४, २३; -न्त्यम् शाश्रौ १६, १५, १; हिध १, ५, २८^d; -न्त्याय बौश्रौ २८, ४ : ३०. अनन्त-कर- पा ३, २, २१. अनन्त-काम, मा^d -मः, -माः शाश्रौ १४, ८२-८४, २. अनन्त-ग- पा ३, २, ४८. अनन्त-तन्त्र- > ? ञ-तर- रम् निसू ८, ९ : १४. अनन्त-स्व- त्वात् निसू ९, १ : ५. अनन्त-दक्षिण^d -णः आपध २, २६, २; हिध २, ५, १९७. अनन्त-म्-भावुक^e -कम् वाधूश्रौ ३, ९ : ३; ४, ३४ : २. अनन्त-लोक^d -कः आमिगृ ऋ ३, ६, ३ : २७; ३०; ऋषीपि १, १२ : ३; ६; हिपि १० : १; ४ ऋ; -कौ आपध २, ४, १५; हिध २, १, ६८. अनन्त-शीर्ष^d -र्षाय अप ३६, ९, १५ ऋ. अनन्त-स्थ- स्थम् ऋप्रा १३, ३६.

अनन्त-स्वर्ग^f -र्गम् सु ३१, ५. अनन्ता(न्त-आ)वसथे(थ-इ)तिह- भेषज^g -जात् पा ५, ४, २३. अन्-अन्तःपाद^h -दम् पा ३, २, ६६. अन्-अन्तरः(ः) अप्रा ३, ३, ५. अन्-अन्तर, रा^d - पाग ४, २, १३८ⁱ; पावाग ५, १, १२४^j; -रः आश्रौ; पा ६, २, ४९; पावा १, ३, ९; -रम्^k आश्रौ; पा ८, १, ३७; ४९; -रया विध २६, ३; -रयोः निसू ७, ६ : १५; -रस्मिन् निसू ३, ९ : ३७; -रस्य आश्रौ ५, १०, २५; पावा १, १, ५७; ३, १४; ५, १, ८४; ७, ३, ८५; -रा विध; या २, २; -राः आश्रौ; पा १, १, ७; -राणाम् भासू १, २०; -राणि शाश्रौ; -रान् वैश्रौ; -राम् वाध २, २२; वृदे २, २७; -रायाः या ८, ५; -रे आपश्रौ; पावा १, २, १७; -रेण आश्रौ २, १६, ५; निसू ६, १२ : ६; -रौ वाश्रौ ३, २, ६, २९; लाश्रौ ६, ५, २२; ऋप्रा ११, ४७. आनन्तर्य- पावाग ५, १, १२४; -र्यम् पावा १, १, ७; मीसू ३, १, २३; १०, ८, ५४; -र्यात् काश्रौ ९, ९, १६; १३, १, ६; लाश्रौ ९, ६, २१; १०, २, १०; मीसू ५, ४, ८; ६, ५, ३१; ९, २, २३; -र्ये आश्रौ २, २, १२; -र्येण आश्रौ ५, ८, ८; द्राश्रौ १५, ३, १०; लाश्रौ ५, ११, १०; ६,

३, २६; मीसू ४, ३, १०. आनन्तर्य-योग^l -गः आश्रौ २, १, ६. आनन्तर्य-वचन^m -नम् पावा १, १, ७. आनन्तर्य-विज्ञानⁿ -नात् पावा २, १, १. आनन्तर्या(र्य-अ)र्थ- र्यम् पावा १, १, ६७. आनन्तर्या(र्य-अ)प्रसिद्धि^o -द्विः पावा ८, १, ७२. अनन्तर-ग्रहण^p -णम् पावा ६, २, ४९. अनन्तर-निर्देश^q -शात् पावा ६, १, १०२. अनन्तर-प्रतिषेध^r -धः पावा ८, १, ७२; -घात् पावा ७, २, ३. अनन्तर-विधि- श्रौ पावा ८, १, ७२. अनन्तर-वृत्त्यु(ति-उ)पात्त^s -त्तम् विध ५८, ७. अनन्तरा(र-आ)दि- दिपु पावा ४, ३, १२०. अनन्तरा-पुत्र^t -त्रः बौध २, २, १२. अनन्तरा(र-आ)ज्ञान^u -नात् लाश्रौ ९, ६, १८. अनन्तरा(र-अ)र्थ- र्ये पावा ४, ४, १२८. अनन्तरीय- पा ४, २, १३८. अनन्तरै(र-ए)कान्तर-द्वयन्त(र>) रा^v -रासु गौध ४, १६. अनन्तरौ(र-उ)त्पन्न- न्नाः विध १५, ३६.

a) पाभे. पृ २६ b द्र. 1 b) सपा. अनन्तम् <> आनन्त्यम् इति पाभे. c) सपा. शाश्रु ३, १३, ५ सर्वाभिः इति पाभे. d) विप. । बस. । e) विप. । उस. उप. खुकञ् प्र. । f) कस. । g) समाहारे द्रस. । h) तस. उप. अस. । i) पाका. अन्तर- इति । j) पासि. (कासं.) अन्तर- इति । k) प्रायेण वा. क्रिवि. । l) सस. । m) पस. । n) विप. । ([शबल-] अर्थ-) । तृस. पूप. कस. । o) द्रस. ।

अन्-अन्तरय^१ -याय लाश्रौ १०, ३, ६.
 अन्-अन्तर(र-अ)र्ध्व^२ -र्ध्वः ऋप्रा ९, ७.
 अन्-अन्तरा^३ माश्रौ १, ७, १, १४; या २, २.
 अन्-अन्तराय^४ -यम् बौश्रौ २६, ११ : २.
 अन्-अन्तरित- -ताः आपश्रौ १४, ३२, ४; वैश्रौ २०, २८ : १०; द्राश्रौ ७, २, १४; लाश्रौ ३, २, १३; -तौ निसू ९, ११ : ३८.
 अन्-अन्तरिति^५ -त्यै तैप्रा ८, ८१.
 अन्-अन्तर्गर्भ,र्भा^६ -र्भै बौश्रौ २०, ११ : २६; कौश्रु १, ४, १; शांश्रु १, ८, १४; जैश्रु १, २ : १; -भौ काश्रौ २, ३, ३०; आपश्रौ २, ९, १२; काठश्रौ १३; भाश्रौ २, ९, ९; वाश्रौ १, ३, ३, १६; वैश्रौ ५, ७ : ४; हिश्रौ १, ८, १०; आश्रु १, ३, ३.
 अन्-अन्तर्गर्भिन्^७ -र्भिणम् कप्र १, २, १०.
 अन्-अन्तर्धाय^८ बौश्रौ २०, १५ : ४; २१, ११ : १६; १४ : १८; जैश्रु १, १९ : २६; गौध ९, ४२.
 अन्-अन्तर्वासस्^९ -साः शंघ ५१.
 अन्-अन्तर्हित,ता^{१०} -तः बौश्रौ ६, ६ : २७; वाधूश्रौ ३, ७० : ६; -तम् आश्रौ ७, २, १५; गोश्रु २, ६, ३; द्राश्रु २, २, १९; -ता निसू ६, ८ : ३०; अप ४६, १, ९;

-ताः बौश्रौ १०, २ : १; -ताम् गोश्रु २, १०, २४; द्राश्रु २, ४, १५; -तायाम् शांश्रु ४, ११, २०; १२, २१; पाश्रु २, ७, १५; माश्रु १, २३, ९; १०; -ते काश्रौ ९, २, १८; बौश्रौ १८, २२ : ५; ६; लाश्रौ ९, ८, ४; -तेषु आश्रौ ६, ६, ११.
 अन्-अन्तःसद्यश्-श्रेयश्-छ-न्दस्^{११} -न्दसाम् शौच २, ६२.
 अन्-अन्तिक^{१२} -के पा ८, १, ५५.
 अन्-अन्ते-वासिन्^{१३} -सिनः वाध ११, १७; -सी आपध १, ८, २६; हिध १, २, ११३.
 अनन्तेवास्या(सि-आ)हृत^{१४} -तानि आपध १, १८, २; हिध १, ५, ७२.
 अन्-अन्तोदात्त^{१५} -त्ते तैप्रा १६, ५.
 अनन्तोदात्त-त्व- -त्वम् पावा ६, २, ४९.
 अनन्तोदात्ता(त-अ)र्ध- -र्धम् पावा ४, १, ५४; ५, ४, ११३.
 अन्-अन्त्य, न्त्या^{१६} -न्त्यः ऋत ५, ७, १२; भाशि ६५; नाशि २, २, ८; -न्त्यम् आपध २, २३, १२; हिध २, ५, १६५; भासू १, १५; -न्त्ययोः पा ७, २, १०६; पावा ८, २, ९; -न्त्यस्य पा ७, २, ७९; ८, २, ८६; १०५; पावा ७, ४, ५५; ८, २, ८६; -न्त्या अप १, ४३, ६; -न्त्याः शैशि १०२; -न्त्ये शांश्रौ १५, ११, ४.
 अनन्त्य-नियमा(म-अ)र्ध- -र्धम् पावा १, १, ३.

अनन्त्य-प्रतिषेध^{१७} -धः पावा १, १, ३; २, २८.
 अनन्त्य-वचन^{१८} -नात् पावा ३, ४, २१.
 अनन्त्य-विकार^{१९} -रे पावा ६, १, १३.
 अनन्त्या(न्त्य-अ)र्ध- -र्धम् पावा ७, २, ३.
 अन्-अन्ध^{२०} -न्धः हिश्रु १, २५, ११; वृदे ४, १५.
 अनन्ध-ता- -ताम् सु १, १.
 अनन्ध-म्-भावुक^{२१} -कम् वाधूश्रौ ४, ६४ : १०.
 अन्-अन्न^{२२} पा ६, २, १६१; -न्नम् वाध २२, १; -न्ने पा ३, २, ६८.
 अन्-अन्ना(न्न-अ)र्ध^{२३} -र्धः आपश्रौ ६, २१, १.
 अन्-अन्य^{२४} -न्त्यः ऋप्रा ६, ३४; -न्त्यस्य आपध १, २३, २; हिध १, ६, १०.
 अनन्त्य-त्व- -त्वात् पावा १, १, ५६; ६९; २, ४, ८५; ८, ३, ६५; ८५; पाप्रवा २, ४.
 अनन्त्यत्व-कर^{२५} -रः पावा १, १, ६९.
 अन्-अन्य-कारित^{२६} -तः ऋप्रा १०, ७; -तम् उसू ४, ६.
 अन(न्-अ)न्य-गति^{२७} -तिम् काश्रु ४३ : ९.
 अन(न्-अ)न्य-गतिक^{२८} -क-त्व- -त्वेन काश्रु ४३ : २१; ४५ : ११.
 अन(न्-अ)न्य-देवत-व्यवेत^{२९} -तेषु हिश्रौ ९, ८, ५०.

a) वैप १ द. । b) तस. । c) अव्य. । d) बस. वा. क्रिवि. । e) विप. (कुर्यातरुण-विधृति-प्रभृ.) । तस. > बस. । f) विप. । तस. । g) विप. । बस. > कस. । h) तस. उप. द्वस. । i) विप. (मध्वादि-) । तस. । j) °न्त्यक° इति पाठः ? यनि. शोवः । k) षस. । l) विप. । उस. उप. सुकम् प्र. । m) उस. । n) विप. । तस. > तस. । o) विप. । बस. उप. कस. । p) विप. (पशु-) । तस. > बस. > तस. ।

अन्-अन्य-पूर्व(व)र्षी^a -वर्षा वा १
१०, १; गौध ४, १.
अन्-अन्य-प्रकृति^b -ति: पावा १,
१, ३९.
अन्-अन्य-भाव^c -व: आश्रौ ९, १,
१२.
अन्-अन्य-योग^d -गम् ऋप्रा ११,
२५.
अन्-अन्या(न्य-अ)र्थ^e -र्थ: पावा १,
३, ९.
अनन्यार्थ-त्व- -त्वात् निसू २, १३:
४०.
अन(न्-अ)न्वय^f -य: मीसू ८, १,
२०; ११, ३, ५२; ५३.
अन्-अन्वादेश^g -शे पावा ८, १,
२६.
अन्-अन्वारब्ध^h -ब्धे काश्रौ ४, २,
२७.
अन्-अन्वारब्ध-दर्शपूर्णमासⁱ -
-सस्य वौश्रौ २०, १८: ३०.
अन्-अन्वारभमाण^j -ण: भाश्रौ
८, १६, १०.
अन्-अन्वारभ्य आपश्रौ १, १३, १०:
वौश्रौ १, ३: २८; १४, २: १९;
२०, ४: २४; २१, १२: २२; २४,
२३: ११; भाश्रौ १, १४, १;
माश्रौ १, १, ३, ३०; वैश्रौ ३, ७:
१७; हिश्रौ १, ३, ४५.
अन्-अन्वाहिताग्नि^k -ग्नि: आश्रौ
३, १०, ७.
अन्-अन्वित^l -तम् कौसू ६, २४[†];
-ते या १, १३; १४; २, १.
अन्-अन्वीक्षमाण, णा- -ण: आपश्रौ

१५, ११, ७; वौश्रौ ९, ११:
१८; २३, १०: २; भाश्रौ
११, ११, ७; वैश्रौ १३, १३:
१६; १६, १२: ३; हिश्रौ २४,
५, १; हिपि १०: २; १५:
१४; २१; १६: १; ४; -णा
आग्नि ३, ६, ३: १४; वौपि १,
११: १२; हिपि ९: ७.
अन्-अपक्रमण^m -णात् निसू ५,
१०: १६; १७.
अन्-अपक्रामु(क)काⁿ -का
वाधूश्रौ ४, ४८: ८.
अन्-अपक्रिया^o -या विध ३७, २९.
अन्-अपग^p -ग: जैश्रौ ५: २; -गा:
जैश्रौ ७: ११; -[†]गान् आपश्रौ
३, १३, ६; भाश्रौ ३, १२, ९;
हिश्रौ २, ६, ३२.
अन्-अपचि(त)ता^q -ता लाश्रौ
९, १०, २.
अन्-अपच्छादयत् -यन्त: माश्रौ
२, २, ४, १२.
अन्-अपच्छादयमान- -न: आपध
१, ८, २४; हिध १, २, ११२.
अन्-अपजय^r -ज्यम् वौश्रौ १८,
४९: ५; ६.
अन्-अपत्य^s -त्य: वौपि ३, १२, ३;
शोध ३७७: १३; आपध २,
१६, १२; वैध २, ६, १; हिध २,
५, १२; गौध २८, १८; -त्यस्य
गौध २८, २२; ४०; ४२; -त्या:
वाध १७, ४१; -त्यानाम् वौध
२, १०, ३; -त्ये पा ४, १, ८८;
६, ४, १६८; १७३; -त्येभ्य: पावृ

३, ३, १२.
अन्-अपत्या(त्य-अ)धिकार-
स्थ^t -स्यात् पावा ४, १, १६.
अन्-अपदिष्ट^u -ष्टानि वृदे ३, ४९.
अन्-अपनय^v -य: काश्रौ २५,
९, ८.
अन्-अपराध^w -ध: या १०, ११;
-धा: शोध २५५.
अपराध-त्व- -त्वम् या ११, २४.
अन्-अपरुध्य^x -ध्यम् वौश्रौ १३,
२२: १२[†].
[†] अन्-अपरोध्य^y -ध्य: आपश्रौ
१६, ६, ४^३; माश्रौ ६, १, २, २६;
वाश्रौ २, १, १, ५०^३; हिश्रौ ११,
१, ६९^३.
अन्-अपवाद^z -द: पावा २, ३, १२.
अन्-अपवृक्त^{aa} -क्त: वैश्रौ २०,
३९: १[†].
अपवृक्ता(क्त-अ)र्थ^{ab} -र्थ: आपश्रौ
९, १९, १५[†].
अन्-अपवृत्त^{ac} -त्त: हिश्रौ १५, ८,
३०^१; -त्ते शाश्रौ १३, ४, १.
अपवृत्त-कर्मन्^{ad} -र्म आश्रौ ३,
१४, १०.
अन्-अपव्याथ^{ae} -थाय जैश्रौ १७:
२०.
अन्-अपव्याहरत् -रन्त: आपश्रौ
२, १६, १; भाश्रौ २, १६, १;
वैश्रौ ६, ५: ९; हिश्रौ २, २, ३.
अन्-अपश्रित^{af} -त: द्राश्रौ ५, २, ५;
लाश्रौ २, ६, २; निसू १, ११:
१२; आपध १, ६, १७; हिध १,
२, ४०.

a) विप. । तस. > बस. । b) विप. । बस. > कस. । c) तस. । d) विप. । तस. । e) तस.
उप. नाप. । f) विप. । तस. उप. < अप ✓ गम् । g) विप. । बस. । h) तस. > पस. > उस. । i) वैप १,
परि च द्र. । j) सपा. °वृक्तः <> °वृक्तार्थः <> °वृक्तः इति पाभे. । k) विप. ([असमाप्त-कार्य-] यूप-) बस. ।
मूको. सर्वत्र अनपवृत्तार्थः इत्येवं पाठः । तत्र अपवृत्त- इति < अप ✓ वृत् [°पूर्तौ] इति कृत्वा तात्पर्येऽभेदः द्र.
(तु. पाधा. ✓ वृत् इत्यस्याऽत्रधिपरः प्रयोगः) । l) °प्रवृ° इति पाठः ? यनि. शोधः (तु. सप्र. शाश्रौ.) ।

अनपस्थितम्^a हिश्रौ २२, ६, ७.
 ?अनपस्पशान^b- नम् आमिष्ट ३,
 ५, २: १.
 ?अन्-अपस्फुर(त् >)न्ती- न्ती:
 आमिष्ट ३, ८, २: ३९; बौपि १,
 १५: ४७; -न्तीम् आपश्रौ ११,
 ४, १४; १२, १४, १२; भाश्रौ
 १२, ४, ९; हिश्रौ ७, ४, ३९; ८,
 ४, १४.
 अन्-अपस्व(र >)री^c- री: आपश्रौ
 २०, १, ३; हिश्रौ १४, १, ३.
 अन्-अपहत- तान् कौस् २५, २७.
 अनपहत-धाना^d- ना: कौस् १९,
 १०.
 अन्-अपहृत- ते द्राश्रौ १४, २, २.
 अन्-अपाकुर्वत्- र्वन् काश्रौ २२,
 ५, १५.
 अन्-अपादान^e- ने पा ८, २, ४८.
 अन्-अपाय^f- य: मीस् ३, ५, ४७;
 १०, ८, ६७.
 ?अन्-अपायिन्- यिन: काश्रौ
 ४, २, १२; पाठ २, १७, १३; १४;
 १५: १६; -यिनम् वृदे ६, ५५;
 -यी हिष्ट १, १४, २.
 अनपायिनी- नी पाठ २, १७, ९.
 ?अन्-अपावृत्^g- वृत् ऋपा ९, २२.
 अन्-अपावृत्^h- तम् शंध ७७.
 अन्-अपिधानⁱ- नम् शाश्रौ ७, ३, १.
 अन्-अपि सोमपीथ^j- थ:, -था:
 शाश्रौ १४, ६२, २.
 ?अन्-अपिहित- त: आपध १,
 १०, ८; हिष्ट १, ३, ३७.

अन्-अपुंसक^k- कम् पा २, ४, ४;
 -कस्य पा, पावा १, १, ४३; -केन
 पा १, २, ६९.
 अन्-अपूप-त्व- त्वात् मीस् १०, १,
 ५५.
 अन्-अपूपाकृति^l- तिम आपश्रौ १,
 २५, ४; भाश्रौ १, २६, २; हिश्रौ
 १, ६, ४५.
 अन्-अपे(क्षा >)क्ष^m- क्षम् काश्रौ
 ५, १०, २०.
 अनपेक्ष-त्व- त्वात् मीस् १, १, ५;
 २१.
 अन्-अपेक्षमाण- ग: काश्रौ २१,
 १, १७; -गा: काठश्रौ ३५.
 अन्-अपेक्षाⁿ- क्षया आपध १, २२,
 ६; हिष्ट १, ६, ६.
 अन्-अपेक्षित- तौ आपमं १, ८, ७^{oo}.
 अन्-अपेक्ष्य पावा ३, १, २६.
 अन्-अपेक्ष्य- क्ष्यम् मीस् १, ३,
 १; ३.
 अन(न्-अ)पेत- तम् शाश्रौ २, १४,
 ८; निस् ३, १२: ४८^२.
 अन्-अपोब्ध- ब्ध: वौश्रौ १३,
 ४२: ८.
 अन्-अपोहत्- हन् वाश्रौ १, ३, १,
 २६.
 अन(न्-अ)पोह्य- ह्यानि माश्रौ १,
 ६, ३, १.
 अन्-अप्यस्^o- प्यस: या ४३, ११^१.
 अन्-अप्रगल्भ- ल्भ: वौश्रौ ३, २७:
 २५.
 ?अनभस्तन्त्रम् वाश्रौ १, १, १, २८.

अन्-अभिकाङ्क्ष्य वध १, ९, ११.
 अन्-अभिक्रम्य आपश्रौ १२, २०, २२;
 वौश्रौ १४, २: ११; १२.
 अन्-अभिगमन^p- नम् विध २५, १०.
 अन्-अभिगमयत्- यन् आपश्रौ
 १०, ५, १४.
 अनभिग्लान- अनभिग्लान द्र.
 अन्-अभिधारण^q- गस्य मीस् ११,
 २, ५१.
 अन्-अभिधारित, ता- तम् काश्रौ
 २५, १०, ९; काठश्रौ ७१; -तान्
 वौश्रौ ५, १६: २^१; -ताभि:
 आपश्रौ १८, ६, ८; वैश्रौ १७,
 १६: ५; हिश्रौ १३, २, २३;
 -ताम् वौश्रौ २५, २: ९;
 २६: ९.
 अन्-अभिघार्य आपश्रौ ३, ३, १४;
 ८, १७, ५; काठश्रौ ६३; भाश्रौ
 ३, ३, ११; ८, ३, १०; हिश्रौ २,
 ३, ३९; ५, ५, ५.
 अन्-अभिघ्नत्- घ्नन् माश्रौ १, २,
 ६, २१; वाश्रौ १, ३, ३, २६.
 अन्-अभिचरत्- रत: माश्रौ १,
 ८, ३, ३७; वाश्रौ ३, २, ६, २४;
 -रन् माश्रौ १, ४, ३, १३; ४, १,
 २४; ३, ३१; ४, १९.
 अन्-अभिजित- तस्य आपश्रौ २२,
 १, १२; हिश्रौ १७, १, १५.
 अन्-अभिजुहत्- ह्वन् जैष्ट १, ३:
 १८.
 अन्-अभिदग्ध- ग्धे आपश्रौ १४,
 २५, २; हिश्रौ १५, ६, २२.

a) पाठ: ? अन:, अवस्थितम् इति द्वि-पद: शोध: (तु. सप्र. आपश्रौ १९, २६, २) । b) पाठ: ? अनु^० इति शोध: (तु. ऋ १०, १४, १ प्रष्टु.) । वैप २, ३खं द्र. । c) विप. । तस. । d) नाप. । कस. । e) तस. उप. भाप. =पृथग्भाव- । f) तस. उप. भाप. । g) वैप १, परि. च द्र. । h) तस. उप. <अप-आ/वृ [आच्छादने] । वा. क्विवि. । i) =अकृतसोमपान- । विप. । तस. उप. प्रास. । j) तस. उप. नाप. । k) विप. (पुरोडाश-) । तस. उप. बस. । l) बस. वा. क्विवि. द्र. । m) सपा. पै १९, १६, १० अनुपश्रितौ इति ।

अन्-अभिधान ^a - नम् पावा ३, १, ७; -नात् शाश्रौ ६, १, ३; पावा २, २, २४; ३, १; ७१; ३, १, ७; २, १; ५; ४, ३, १५३.	३, २४.	१०, १० : ९; -स्पन्तः बौश्रौ १०, १० : १०.
अन्-अभिधावत् - वताम् विध ५, ७४.	अन्-अभिप्राप ^b - पात् कौसू ७, ११.	!अनभिवर्त्त - -संस्य निस् ६, १० : १६.
अन्-अभिधून्वत् - न्वन्तः आपश्रौ १४, २२, २; १५, ८, १४; भाश्रौ ११, ८, १८; हिश्रौ २४, ३, ६; हिपि २ : १५.	अन्-अभिप्रेत - तः मीसू १०, ८, ४२; -तम् हिय १, १६, १८; १७, ४; विध ३२, १२; मीसू ९, ३, ३४.	अन्-अभिवा(त>)ता ^k - ताः लाश्रौ ८, ५, ३.
अनभिधून्वती - स्यः आपश्रौ २०, १७, १४.	अन्-अभिप्रोक्षत् - क्षन् माश्रौ १, २, २, २; वाश्रौ १, २, ४, ३८.	अन्-अभिवादुक - कः वैताश्रौ ११, १८.
अन्-अभिध्वंसयत् - यन् आपश्रौ १२, १४, १५; माश्रौ २, ३, ५, ८; हिश्रौ ८, ४, १७.	अन्-अभिभाषमाण - णः माश्रौ ४, ७, १; बौध २, २, ४३.	अन्-अभिवाद्य - द्याः गौध ६, ९.
अन्-अभिनिरु(स>)ता - साम् माश्रौ ३, १, ३०.	अन्-अभिभाषित - तः आपध १, ८, १४; हिध १, २, १०२.	अन्-अभिवाशस्त - > शस्ता(स्न-अ)-पतित - तानाम् वंध १, ३, ३.
अन्-अभिपरिहरत् - रन् कौसू ४४, ११.	अन्-अभिभाष्य वैश्र २, ११ : १०; ३, ९ : ५.	†१अन्-अभिवाशस्ति ¹ - स्ति ^m आश्रौ ४, ५, ३; शाश्रौ ५, ८, २; द्राश्रौ १४, २, ३; लाश्रौ ५, ६, ६; कौश्र १, २, ३; शांश्र १, ६, ५; -स्ति ^m वैताश्रौ १३, १८.
अन्-अभिपरिहार ^a - रे आश्रौ ४, १२, ३.	अन्-अभिभुजत् ^c - जन् वाश्रौ १, २, ४, ६१ ^d .	†२अन(न्-अ)भिवाशस्ति ¹ - स्तिः शाश्रौ ३, १९, ३ ^m ; काश्रौ २५, १, ११ ^o ^m ; आपश्रौ ३, ११, २ ^m ; वैश्रौ २०, २६ : ११ ^m ; कौसू ५, १३ ^m ; ९७, ४ ^m ; अप ४८, ६२ ^p ; -स्ती ^m आश्रौ १, ११, १३; आपमं १, ५, १८; हिश्र १, २६, १३.
अन्-अभिपरिहृत - तः बौश्रौ २५, २ : ६.	अन्-अभिमाति-पूर्व ^e - र्वः ऋप्रा ९, २९.	†अनभिवाशस्ति-पावन् ^q - वा काश्र ४१, ७ ^r .
अन्-अभिप्रथन ^a - ने बौश्रौ २७, ३ : ३.	अन्-अभिमुख ^f - खम् कौसू ११, २० ^g ; आपध १, ६, २०; हिध १, २, ४२.	अन(न्-अ)भिवाशस्त्य ¹ - स्यः ^p निघ ३, ८; -स्त्यम् जैश्रौ ९ : १०.
अन्-अभिप्रश्वसत् - सन्तः बौश्रौ ९, ३ : १.	अन्-अभिमृष्ट - ष्टम् बौश्रौ १०, ४६ : ३१; १९, ४ : ११.	†अन्-अभिवाशस्तेन्य ¹ - न्यम् शाश्रौ ५, ८, २; -न्याय आपश्रौ ५, २४, ४; हिश्रौ ३, ५, २५.
अन्-अभिप्राणत् - णन् आपश्रौ १५, २, ११; भाश्रौ ११, २, १९; वैश्रौ १३, ३ : ४; हिश्रौ २४, १, १३.	अन्-अभिग्लता ^h - ताः ¹ बौश्रौप्र ३१ : ४.	अन्-अभिज्ञोक्त ^s - कम् कौसू ३, ७;
अन्-अभिप्राणुयात् ^p हिश्रौ १७,	अन्-अभिग्लान ^h (> आनभि-ग्लान- पा.) पाग ४, १, ११२ ¹ .	
	अन्-अभिरति ^a - तिः विध २५, ७.	
	अन्-अभिरूप ^f - पेण आश्र ३, ७, २.	
	अन्-अभिलक्षित - तः आपश्रौ १०, १२, १३.	
	अन्-अभिलिम्पत् - स्पन् बौश्रौ	

a) तस. उप. भाप. । b) सुमिडीयः समासः । c) तस. उप. <अभि/भुज् [कौटिल्ये] । d) सप्र. माश्रौ १, २, २, २५ न भसदं प्रत्यस्यति इति । e) विप. । तस. उप. बस. । f) विप. । तस. । g) वा. क्विवि. द्र. । h) व्यप. (गोत्रप्रवर्तक-ऋषिविशेष-) । व्यु. ? । i) बहु. <आनभिग्लान- । j) अनभिग्लान- इति पाका. टि. द्र. । k) विप. (गो-) । तस. उप. =व्याधिता- । l) वैप १, परि. च द्र. । m) पाभे. वैप. १ परि. द्र. । n) तु. वैप १ परि.; वैतु. C. विप. > नाप. इति ? । o) तु. कर्कः; वैतु. कासं. °स्तिपाः इति ? । p) सपा. अनभिवाशस्तिः <> अनभिवाशस्त्यः इति पाभे. । q) विप. । उस. उप. √पा [रक्षणे] + वनिष् प्र. । r) विप. । तस. उप. अभिवाशस्ति- + तादर्हिकः यत् प्र. । s) विप. । बस. उप. भाप. ।

१३७, ३९. अन्-अभिषिक्त- -क्तः बौध २, ४, २. अन्-अभिषेक्य- -क्याः लाश्रौ ९, १, २२. अन्-अभिसंधिकृत- -ते वाध २०, १. अन्-अभिसंधिपूर्व ^a - -र्वम् आपध १, २६, ७; बौध १, ५, ११८; ४, २, १३; हिध १, ७, १८. अन्-अभिसंवन्ध ^b - -न्धात् मीस् ४, १, ५. अन्-अभिसृजत्- -जन् वाश्रौ १, ३, १, ४. अन्-अभिहिङ्कृत- -तानि आश्रौ ६, १०, १२. अन्-अभिहिङ्कृत्य आश्रौ ३, १, १०; ४, ७, ३; ५, १, १; ९, १. अन्-अभिहित- पा. पाग २, ४, ६९ ^c ; -तः बौश्रौ १२, २: १६, पावा २, ३, १; -ते पा २, ३, १; पावा २, ३, १; ४६. अनभिहित-त्व- -त्वात् पावा २, २, २४. अनभिहित-वचन- -नम् पावा २, ३, १ ^d . अन्-अभिहुत, ता- -तम् आपश्रौ ५, १६, ३; भाश्रौ ५, ९, ११; हिश्रौ ३, ४, ४०; -तानाम् बौश्रौ १२, ८ : २५. अन्-अभ्यक्त- -क्तः शाश्रौ १२, २१,	१ ^e †; -क्तम् अप १, ९, ३. अन्-अभ्यर्च्य विध ५१, ७५. अन्-अभ्यसूया ^b - -या विध २, १७. अन्-अभ्यस्त-प्रसारणा(ण ^d -अ)- र्थ- -र्थम् पावा ६, १, ३३. अन्-अभ्यागमिष्यत्- -ष्यन् काश्रौ २५, १, १४; आपश्रौ ९, ५, ५; १५, १८, १; वैश्रौ २०, ९ : १०-११; हिश्रौ १५, २, ४. अन्-अभ्यावर्तयत्- -यन् माश्रौ ६, १, ३, ३. अन्-अभ्यावृत्य बौश्रौ २४, २९ : १२. अन्-अभ्याश- -शस्य ^e पावा ६, ३, ७०. अनभ्याश-म्-इत्य- पावा ६, ३, ७०. अन्-अभ्यास ^b - -सः मीस् ११ १, ३५; ३७; -सम् आश्रौ ३, १, ११; ६, १०, १२; द्राश्रौ ६, २, १९; लाश्रौ २, १०, १९; ७, ९, १३; -सस्य ^f पा ६, १, ८; -से मीस् १०, ५, ४५; अन्-अभ्यासक्त- -क्तम् निस् ९, १३ : १५. अन्-अभ्यास-विकार ^b - -रे पावा १, १, ६५. अन्-अभ्यासादयत्- -यन्तः आपश्रौ १८, ४, १७; हिश्रौ १३, १, ५१. अन्-अभ्याहत ^b - -तम् आश्रौ ४, १५, ११.	अन्-अभ्युक्षित- -तम् कौस् २, २५. अन्-अभ्युक्ष्य शोध १५७. अन्-अभ्युच्छिन्दत्- -न्दन् भाश्रौ ५, ३, १०. अन्-अभ्युदि(त>)ता- -ताम् बौश्रौ २०, १ : ४७; ४९; ५२. अन्-अभ्युद्धृत, ता- -तम् अप्राय ४, ३; ४; ५, १; -ताः शोध २३४; -ते अप्राय ५, २. अन्-अभ्र ^b - -भ्रम् अप ७० ^g , १७, ३; -भ्रे अप ७० ^g , १७, ४; १८, ५; १९, १; २०, ४; ७० ^g , ३२, ९; १० ^g ; -भ्रेषु अप ६७, ६, ४. अ-नमत्-> ^h मन्-निमज्जत् ¹ - -जन्तः शाश्रौ ४, १५, ३ ¹ . †१अन्-अमित्र ^k - -त्रम् अप ३२, १, ११; अत्र ६, ४०. २अन्-अमित्र ^h - -त्रः या १, १६; -त्राः या ११, १८; -त्राय बौश्रौ १०, ५६ : ४†; -त्रे माश्रौ १, ६, १, २१†. †अन्-अमीव, वा ^h - -वः आपमं २, १५, १८; कौस् ४३, १३ ¹ ; -वम् हिपि १८ : ९; -वस्य आपमं २, १५, १५; -वाः आपश्रौ ६, २९, १ ^m . अन्-अमुत्र ^h - -त्रः आपध २, २१, १०; हिध २, ५, ११९. अन्-अम्बूकृत ¹ - -तम् लाश्रौ ६, १०, १८. ?अनयन् ^o आमिष्ट ३, १, २ : ३; बौग
---	---	--

a) तम. वा. क्तिव. । b) तस. उप. भाप. । c) व्यप. । वहु. <आनभिहित- । d) तस. >
षस. । e) भाण्डा. षस्य इति ? । f) बस. । g) विप. । बस. > षस. । h) विप. । बस. ।
-भ्रम् इति वा. क्तिव. । i) कस. पूष. तस. । j) सप्र. कौष्ट ५, ४, २ अनुपनिमज्जन्तः इति ।
k) वैप १, परि. च द्र. । l) पाभे. वैप १ परि. अमीवहा ऋ ७, ५५, १ टि. द्र. । m) पाभे.
वैप १ परि. असपत्नाः शौ १९, १४, १ टि. द्र. । n) विप. (शब्द-) । तस. । उर. = व्यक्तेऽप्यन्तर्मुक्ष
इव श्रूयमाणः (तु. कैयटः) । o) पाठः ? अयम् इति शोधः (तु. सपा. हिष्ट २, ११, १) ।

२, ११ : २९.
अन्-अरण^१ - ङे शुभ्रा १, १६६.
अन्-अर्घ^२ - धेण विघ ५, १२५.
अन्-अर्चित^३ - तः कौट ३, १०, ३५;
 शां २, १७, २; -तम् विघ
 ५१, २०; गौध १७, १९.
अन्-अर्चिस्^४ - र्चिषि कप्र १, ९, १२.
अन्-अर्थ, र्था^५ - र्थम् विघ २०,
 ४६; वृदे ६, ११३; -र्थाः अप
 १, ३२, ११; -थान् मागृ २, १५,
 २; अप ३०^३, २, ११^३; ३४, १,
 ७^३; या ९, ४; १०, २३;
 आज्यो १०, ८.
अन्-अर्थक^६, र्थिका^७ - पाग ५, ४,
 १५१; -र्थकः ऋप्रा; या २, २;
 ३, १०, १; पावा १, २, ४५; २, २,
 १४; ५, १, ८०; -र्थकम् आपध;
 या १, ७; १५; ६, १६; पावा १,
 १, ३६; ५०; -र्थकाः वृदे २,
 ९०; या १, ९; १५; ४, ७;
 मीस् १, ४, १८; -र्थकानाम्
 ऋप्रा १२, २६; -र्थके पावा १,
 १, ६५; -र्थकेन पावा ५, ४,
 १५२; -र्थकौ पा १, ४, ९३;
 -र्थिका मीस् ९, ३, ३८; १०,
 ७, २४.
आनर्थक्य^८ - क्यम् कौशि २४;
 मीस् १, २, १; ६, १, ४७; -क्यात्
 वैश्रौ २१, १८; ६; मीस् १, २, ४.
**अनर्थक-कर्मप्रवचनीया (य-अन्)न्ययु-
 क्त^९** - क्तैः अप्रा १, १, १३;
 शौच ४, ३१.

अनर्थक-त्व^{१०} - त्वात् मीस् ६, ३, ३८.
अनर्थका (क-अ)र्थ^{११} - र्थम् पावा ८, २,
 ८५.
अन्-अर्थगति^{१२} - तेः पाप्रवा ५, ११.
अन्-अर्थज्ञ^{१३} - ज्ञः शैशि २१०; याशि
 २, ८२.
अन्-अर्थभेद^{१४} - न्दे आश्रौ ३, ६, ७.
अन्-अर्थलुप्त^{१५} - सः पागृ ३, ८, १६;
 -सम् शाश्रौ २, १४, ६; काश्रौ
 ८, ८, २३; कागृ १३, ९; -साः
 काश्रौ ६, १०, १९.
अन्-अर्थलोप^{१६} - पात् मीस् ३, ३,
 २४; १०, १, ४९.
अन्-अर्थविद्^{१७} - विद् वृदे ७, १११.
अन्-अर्थसंबन्ध^{१८} - न्धः मीस् १, ४,
 १५; -न्धान् मीस् ३, १, २२.
अन्-अ(र्थ-अ)थावेक्ष^{१९} - क्षः आपगृ
 २१, २.
अन्-अर्थ्य^{२०} - र्थ्याः बोश्रौ १२, ८;
 २५.
अन्-अर्घ (ध-ऋ)च्वा (च-अ)न्त^{२१} -
 न्ते ऋप्रा १, १७.
अन्-अर्धुक^{२२} - कः गोश्र १, १, १८;
 द्रागृ १, ५, ३; -कम् हिषि १,
 २० : ७.
अनर्धुक-त्व^{२३} - त्वम् कप्र १, ६, १२.
अ-नर्भन्^{२४} - मणि जैश्र १, १९ : २८.
अन्-अर्थ-पर^{२५} - रयोः ऋप्रा ७, १७.
न^{२६}अन्-अर्व^{२७} - र्वम् या ४, २७७; ६,
 २३.
न^{२८}अन्-अर्धन्^{२९} - र्धन्ः वौश्र २, २, ४;
 मागृ २, १५, ६; -र्वा आपश्रौ ७,

१८, ३; बोश्रौ ४, ६ : ४३; २०,
 २८ : २०^३; भाश्रौ ७, १३, १०;
 माश्रौ १, ८, ४, २; वाश्रौ १, ६,
 ५, १२; वैश्रौ १०, १४ : ४;
 हिश्रौ ४, ४, ६; अप ४८, ११५^३६;
 निघ ४, ३; या ६, २३६, ७;
 -र्वाणम् शाश्रौ १२, १२, ८;
 कागृ २२, १; ऋअ २, १, १९०;
 वृदे ४, ६३; या ६, २३७.
अन्-अर्श^{३०} - षः अनर्श-राति - तिम
 अप ४८, ११५; निघ ४, ३; या
 ६, २३७.
अन्-अर्ह^{३१} - र्हः कप्र २, १, १; -र्हाः
 शंघ २७१.
अन्-अर्हत्^{३२} - र्हन्तिः आपध १,
 १७, २; हिष १, ५, ३४; -र्हन्त्यः
 आपध २, ९, ६; हिष २, १,
 १२१.
अनल^{३३} - पाउ १, १०६; -लः अप
 २४, ३, ४; ५, ३; ६, ४; ४३, ५,
 ५; नाशि १, ६, १७; -लम् अप
 ४३, ५, ३३; शंघ १२६ : ६३;
 -लस्य आमिगृ १, १, ३ : ३१;
 वैश्र २, ६ : ७^३; हिगृ १, ५,
 १३^३; -ले अप २४, ५, २.
**अनला (ल-आ)कलित-सागर-तोय-
 व(ल)खा^{३४}** - खा अप २४,
 ६, ३.
**अनला (ल-अ)प्यति-गुह-हरी (रि-इ)
 न्द्र-शची-प्रजापति-शेष-यमा (म-
 अ)धिदैवत्या^{३५}** - त्याः वैश्र ४,
 १३ : ४.

a) तस. । b) विप. । बस. । c) विप. (वाक्य- [वृदे.] च नाप. (अनिघ-) च । बस. ।
 d) कचिद् वा. क्वि. । e) द्वस. । f) र्थकर्म इति पाठः ? यनि. शोधः । g) तस. > षस. । h) विप. ।
 तस. । i) विप. । तस. उप. तस. । j) विप. । तस. उप. उस. । k) तस. > कस. > षस. । l) विप. ।
 तस. उप. बस. । m) वैप १, परि. च द्र. । n) पामे. वैप १ परि. अनर्शरातिम् ऋ ८, ९९, ४ टि. द्र. ।
 o) विप. । तस. उप. < ✓ षई कर्तरि । p) नाप. (अग्नि-) । व्यु. ? । < ✓ अन् इति पाठ. । q) विप.
 (अवनि-) । बस. पूष. तस. > कस. । षस. । r) बस. पूष. द्वस. ।

अन्-अलंकृत- -तेषु हिथ्रौ ८, १,
५७.

अन्-अलस-समृद्ध^a- -द्धम् बौध
२, ३, ५१; गौध ९, ६५.

अन्-अल्प- -ल्पान् या ९, १०.

अन्-अल्प-मति^b- -ते: पावा १, ४,
५१.

अन्-अल्पशस् (:) वृदे २, ९२.

१अन्-अवकाश^c- -श: वैश्रौ २०,
२: ९.

भानवकाश्य- -श्यान् निसू ८, १०:
१०.

२अन्-अवकाश^d>०त्व- -स्वात्
पावा १, ४, २; २, ३, १; ३, १,
३१; ४५; ४, २, १०४; ३, १५४;
६, १, ९२; ७, १, ८२; २, १००;
३, ९२; ८, २, २३.

अन्-अवकलस- -स: कांश्च ६, १, ९.
अन्-अवकलस्य (सि-अ) मर्ष^e-
-र्षयो: पा ३, ३, १४५; पावा १,
३, १०.

अन्-अवक्रामत्- -मन् वैश्रौ ६,
३: ५.

अन्-अवक्रामम् आपश्रौ २, १३, ७.

अन्-अवक्लिन्दत्- -न्दन् हिथ्रौ २,
१, १९.

अन्-अवक्लिञ्चत्- -ञ्चन् भाथ्रौ २,
१३, ७.

अन्-अवक्षिप्त-वचन^b- -न: या ६,
२९.

१अन्-अवगत^f- -तम् बौश्रौ १३,
२१: १३.

भनवगत-संस्कार^d- -र: या ५, २;

-रान् या ४, १.

२अन्-अवगत^b- -त: हिथ्रौ २२, ३,
३०; ३१.

अन्-अवगम^c- -मे वृदे २, १०८.

अन्-अवगुण्ठित-शिरस्^b- -रा:
विध ६०, २३.

१अन्-अवग्रह^c- -हे शुप्रा ३, १०५;
४, १३९.

२अन्-अवग्रह^d- -ह: शुप्रा १, ९४.
अन्-अवघ्नत्- -घ्नन् आपश्रौ १, १९,
८; हिथ्रौ १, ५, ५०.

अन्-अवघ्राण^e- -णम् वाधूश्रौ ३,
८८: २२; -णेन वाधूश्रौ ३,
८८: ५; ८^h; २३.

अन्-अवघ्राय बौश्रौ १८, १८: ११.

अन्-अवच्छिन्न- -न्नान् निसू ७,
३: ८.

अन्-अवजिघ्रत्- -घ्रति शांश्रौ १६,
३, १९.

अन्-अवत्त^f- -त्तम् कौश्र ३, १०, २६;
शांश्र २, १४, २४; -त्तानि भाथ्रौ
७, १९, १५.

अन्-अवदानीय^f- -यम् बौश्रौ ११,
५: १७; ११: ४; १३: २८;
-यान् हिथ्रौ १३, २, ३७;
-यानाम् भाथ्रौ ५, २, १०, २७;
-यानि आपश्रौ ७, २५, ६; १८,
७, ७; वाधूश्रौ ३, ६१: २; ९;
वाथ्रौ ३, १, २, ४४; वैश्रौ
१०, १९: ७; १७, १८: २.

अन्-अवदानीय-शब्द-त्व- -त्वात्
मीसू १०, ७, ७.

अन्-अवघ, घा^f- -घ: अत्र ४८, ६२;

निघ ३, ८; ऋप्रा २, ६८^g; -घम्
आमिण् २, ७, १०: १; शंघ ७;
-घान् गौपि २, २, ११; -घाभि:
अप्रा ३, ४, १^h.

†अनवघ-रू(प>)पा^f- -पा: कौसू
३, ३; अप २०, ७, ९.

अनवघा(घ-अङ्ग>)क्ली^f- -क्लीम्
वृदे ६, १०४.

†अन्-अवद्राण^f- -ण: पाण् ३, ४,
१७; माण् २, १५, १.

अन्-अवधर्थ^f- -धर्म अप्रा ३, २,
१९^h.

अन्-अवधाय माश्रौ २, ४, १, ४.

अन्-अवधारण^d- -णा: भासू ३, ६.

अन्-अवधारित-काम, मा- -म:
निसू ८, २: ६; -मे निसू ३,
२: १७.

अन्-अवधृ(त>)ता- -ता आश्रौ
१२, ४, २०.

अन्-अवन^f- -ने पा १, ३, ६६.

अन्-अवनिक्त-पाणि^b- -णि: कौसू
७३, १७^h.

अन्-अवनिज्य आपश्रौ २, ३, १५;
भाश्रौ २, ३, १८; वैश्रौ ५, २:
९; हिथ्रौ १, ६, ११५.

अन्-अवनीत- -तम् आश्रौ ५, ६, ६.

अन्-अवपृष्ट^k- -ष्टे भाश्रौ ११, २२,
१०.

†अन्-अवघ्रव^f- -व: निघ ४, ३; या
६, २९^g.

१अन्-अवभृथ^c- -थ: वाधूश्रौ ३,
४१: २४.

२अन्-अवभृथ^d- -थे आश्रौ ३, ६, २१.

a) विप. (ग्राम-) । तृस. पूष. तस. । b) विप. । तस. > बस. । c) तस. । d) विप. । बस. ।

e) द्वस. पूष. तस. । f) वैप १, परि. च द्र. । g) विप. (यजमान-) । बस. उप. भाप. । h) नवलेनवघ्राणेन

इति पाठः ? यनि. शोधः (तु. प्रथमं स्थलम्) । i) विप. (अपाला-) । बस. । j) तस. उप. <✓अव [रक्षणे] ।

k) °ष्ट- इति पाठः ? यनि. शोधः । तस. । पूष. अन् (नञ्) + अव ✓पृष्ट [*आच्छादने] > कर्मणि अवपृष्ट->

(आस्तरणवत्-स्थल-) इति कृत्वा नाप. (तु. सस्थ. नाऽऽर्द्धे इत्यत्र भाद्रै- आर्द्धस्थल- पृ १४६ i टि. द्र.) ।

अन्-अवमृशत्- -शन् काश्रौ ३, २, २१.	अन्-अवलोकयत्- -यन् विध ९७, १.	अन्-अवस्थान ^a - -नम् विध २५, ११.
अन्-अवमेहनी(य >) या- -या: गोश्रु ३,३,१५.	अन्-अवलोप ^a - -पाय निसू ३, ४: १९.	अन्-अवस्थित ^a - -तः अप ६८, १, ४२.
अन्-अवयत्- -यन्तः कौसू ७७,६.	अन्-अवलोभन ^b - -नम् आश्रु १, १३,१.	अन्-अवस्थित-स्व- -स्वात् काश्रौ १५, ४, १७; १८, ६, ३०; पावा १, २,३०.
१अन्-अवयव ^a - -वेन आपश्रौ ९, १३, ७; हिश्रौ १५, ४, ६; ६, २८.	अन्-अववृष्ट ¹ - -ष्टे आपश्रौ १५, २१,८.	अन्-अवस्थित-मति ^c - -तिः शंघ ४५५.
अन्-अवयव-प्रसङ्ग ^b - -ङ्गात् पावा १, ४,२.	अन्-अवशेष ¹ - -पम् आपध २,८,३; हिध २,१,१०४ ^k .	अन्-अवस्ना(त >) ता ^a - -तया आपश्रु १४,११; भाग १,२२:३;
अन्-अवयव-विज्ञान ^b - -नात् पावा ६, १,८३.	अन्-अवसर्जन ^a - -नम् शाश्रौ ७,४, १७.	अन्-अवहरण ^m - -णम् काश्रौ ९, १,९.
अन्-अवयव(व-अ)भिधान ^b - -नम् पावा ८, १,४.	अन्-अवसर्पण ^a - -णाय बौश्रौ ६, २८:४०; १०,३३:६.	अन्-अवहाय बौश्रौ ८,६:१८.
२अन्-अवयव ^c - -वम् या ६,११.	अन्-अवसा(न >) ना ^c - -ना शुश्रु १, ४१३; ५६१; २, १३; ४, ११०; -नाम् शुश्रु १, ३५४; ३,५७; -ने शुश्रु ४,१०१.	अन्-अवहृत ^a - -ते लाश्रौ ५, ६, ५.
अन्-अवर-वयस् ^d - -यसः वाध १३, ४१.	अन्-अवसानीय ^a - -यानि उस् २, २९.	अन्-अवान ⁿ ->अन्वानो(न-उ)पदेश ^b - -शः मीसू ९,२,१९.
?अन्-अवरार्ध ^e काश्रौ १६,२०,१४.	अन्-अवसिच्य शंघ ९९.	अन्-अवानत्- -नन्तः आश्रौ ८, १, १; शाश्रौ ७, ७, ७; १०, ७, १३; -नन्तौ माश्रौ ५, २, ८, १९.
अन्-अवरोध ^a - -धः आश्रौ ३, १४, १८.	अन्-अवस्तीर्ण ^a - -र्णः माश्रौ ५, २, १२,३७; वाश्रौ ३, २, ६, ५९; -र्णन् बौश्रौ २६, २४:१६; -र्णे आपश्रौ १४, ७, १२.	अन्-अवानम् ^o आश्रौ १, ६, ५; ८, ७; २, १६, १४; १९, ६; १७; ३, ६, १४ ³ ; ४, ६, २; ७, ४; ८, ५; ५, १, १५; ५, २-५; ६, ५, २४; ८, २, ३; ६; २, १४; शाश्रौ ३, ८, २३; ५, ९, ४; ११, १; २०, १; ७, २, ११; ८, २; ९, ४; १५, २; १६, ५; ११, १४, १४; काश्रौ १९, ७, १९; २१, ४, ६; आपश्रौ ८, ३, ९;
अन्-अवरोध्य- -ध्यः गौध १३, ५.	?अन्-अवखवसुन्धराम ¹ अप ६८, २, ४.	
अन्-अवर्ण ^a - -र्णात् भाशि ६०.	अन्-अवस्था ^a - -स्था पावा २, १, ३५; ६, १, १३२.	
अन्-अवर्ण-पूर्व ^c - -र्वः तैप्रा ८, १६; भाशि ९६.		
अन्-अवर्ण-स्वर ^d - -रः अप ४७, १, ८.		
अन्-अवर्तिमुखिन् ^e - -खिनः आपश्रौ ८, ११, १०; भाश्रौ ८, १२, २१; हिश्रौ ५, ३, ३३.		

a) तस. । b) षस. । c) विप. । वम. । d) विप. । तम. उप. वस. । e) पाठः ? *अन्-अवरार्ध-
(< *अन् [न-अ] वरा [र-अ] र्ध- > भावे) °ध्व- > °ध्वय (अमुख्यस्थानिस्व-निवृत्त्यै) इति शोधः (वैतु. C.,
II. [शांता २८, ३] अव ✓राध > अव-राधि- इति उप. स्यादिति च, संस्कृतुः शब्दसूत्र्याम् शर्धी- इति प्राति.
इति च ?) । f) कस. । g) विप. । तम. उप. < अवर्ति-मुख- (दारिद्र्य-मुख-) । h) तस. उप.
= अन्-अवलोपन- । i) = अन्-अववृष्ट- । पाठः (तु. मूको.) ? । यनि. < अव ✓वृष्ट [वर्षाभावे] इतीव ह्रदत्तः,
(संस्कारमालापाठमनु L तु. आनसं. ३२०) अन्-अववृष्टे इति पठन् < अप ✓वृष्ट [वर्षाभावे] इतीव C. च ? । j) तस.
वा. क्वि. । k) °शेष्यम् इति पाठः ? । l) पाठः ? *अन्-अवस्त्रा- > -स्त्राम् (सस्य-शालिनीम्), वसुन्धराम्
इति द्वि-पदः शोधः । m) तस. उप. भाप. । n) अन्-अवानम् इत्यस्याऽनुकरण-शब्द- । o) तस. उप.
अव ✓अन् + णमुल्ल प्र. ।

१२, ८, ५^०; १३, २४, १०; १५, १०, ८; २४, ११, ७; ८; १३, ७; बौध्रौ ३, २७: १८; ९, ६: २४; १०: ८; १४, १२: २५^०; माथ्रौ ११, १०, ४; माथ्रौ २, ४, २, ११; वैश्रौ ८, ७: ६; १३, ९: ३; १२: १०; हिश्रौ ५, १, ३६; ८, २, ३२^०; ३५; २१, १, ११; २, ६२; २४, ४, ७; जैश्रौ १७: २४; १८: १३; जैश्रौका १८१; वैताश्रौ १५, ३; १९, ८; ३२, १४; कौश्र २, ३, ८; शाश्र २, ५, १२; १९, ७; आपश्र २१, ९; भाश्र १, ९: ५; अपश्र २, १, ९.

अन्-अवास- -सम् विध १८, ४३.

अन्-अवाप्य विध ३, ६७.

†अन्-अवाय^१- -यम् निघ ४, ३; या ६, ११६.

१अन्-अवेक्षण^०- -गम् शाश्रौ ७, ३, १.

२अन्-अवेक्षण^०- -णा: अप ६८, १, ९.

अन्-अवेक्षन्- -अन् द्राश्र ३, २, १२.

अन्-अवेक्षम्^० द्राश्रौ १२, १, ७; १३, ३, ११; आश्र ४, ५, १०; ६, ४; कप्र ३, ३, १.

अन्-अवेक्षमाण- -ण: आश्रौ २, १, १६; ५, ४; वैश्रौ १३, १८: ६; ७; गोश्र ४, ८, ५; शंघ ३८५^२; -णा: आश्रौ ३, ६, २५; शाश्रौ ४, १५, १; बौश्रौ २, ८: १६; ५,

१७: ८; १०, २२: १७; १२, १: १९; ४: १७; आश्र ४, ४, ९; कौश्र ५, ३, २८; पाश्र ३, १०, २३; आश्रिण २, ४, ७: १२; ३, ४, ४: १५; ६, १: ३१; ३: ३५; ८, ३: ४१; बौशि १, ९: ७; १२: ९; १६: २५; हिशि ८: ४; जैश्र २, ५: ३; कौस् ७, १४; ६८, ३९; ८२, ३; वाध ४, ११.

अन्-अवेक्षित- -तम् गोश्र १, २, १९.

अन्-अवेक्ष्य वाध्रौ २, १४: २; द्राश्रौ ५, १, १७; लाश्रौ २, ५, १४.

अन्-अव्यय^०- -यस्य पा ६, ३, ६६; पावा ८, ३, ३८; ४६.

अन्-अव्ययीभाव^०- -वस्य पावा २, १, २.

अन्-अशन^१- -तम् आश्रौ ३, ११, १७; वैश्रौ २०, १०: ६; वेताश्रौ १, १३; वैश्र ५, १३: १; ६, ८: ८; कौस् ७३, १०^१; वाध २१, २३; -नेन बौश्रौ १८, ३३: ४.

अनशन-मृत^०- -तानाम् काध २७४: १.

अनशन-वर्जम्^० हिशि ८: ९; हिध २, ३, ४४.

अनशाना (न-अ) नध्ययन-वर्जम्^१ हिशि ८: ९.

अनशाना (न-अ) नध्ययना (न-अ) घ- (स् >) : शय्यो (य्या-उ) दको-पस्पशन^१- -नानि हिशि ८: ८;

हिध २, ३, ४४^१.

अन्-अशित्वा काश्रौ ४, १५, ३२.

अन्-अश्रत्- -अतः सु १२, ५; -अता कप्र २, ३, १०; -अताम् शाश्र २, १६, ५; वाध ६, २१; आपध २, ९, १३; बौध २, ७, २३; हिध २, १, १२८; -अन् आश्रौ ३, १२, ९; माथ्रौ १, ५, ६, १३; आश्रिण १, ७, ३: ७; गोशि १, ७, १४; जैश्र २, ८: २४; कप्र २, ९, ९; अप ७०, २, १; वाध ४, ३३; ८, ५; ८; २०, ४६; शंघ ९९; १३३; बौध २, ७, २४; ४, ५, २९; हिध १, ७, ३४^१; या १४, ३०^१; अप्रा १, १, १५; -अन्तः वाध ४, १४; २३, ३४; -अन्तौ आपश्रौ ९, ७, ८; माथ्रौ ९, १०, ३; माथ्रौ ३, ३, ६; वैश्रौ २०, १३: ८; हिश्रौ १५, २, २५.

अनश्रत्-पारायण^१- -गम् भाश्र ३, ११: १४; -णैः आपध १, २७, ९^१.

अनश्रत्पारायण-विधि^१- -धिम् बौध ३, ९, १.

अनश्रत्-संहिता^१- -ताया: जैश्र २, ८: १.

अनश्रत्संहिता-सहस्र^१- -स्रम् जैश्र २, ८: २१; बौध ३, ९, १५.

अन्-अश्नुवान- -नस्य लुस् २, ४: १.

अन्-अश्ममय^०- -यानि बौध २, १०, २४^१.

a) सपा. वैश्रौ १५, ९: ५ अत्राणन् इति, वाश्रौ ३, २, ५, १२ अव्ययानम् इति पाठे. । b) वैप १ परि. द्र. । c) तस. । d) बस. । e) तस. उप. णमुलन्तम्, यद्वा भावे घञन्ते वा. किवि. । f) = उपवास- । तस. उप. भाप. । g) विप. । तृस. । h) द्रस. > णमुलन्तम् । i) द्रस. । j) ष्ययनोदचःशय्यो^० इति पाठः ? यनि. शोधः (तु. हिशि.) । k) सप्र. अनशनन् पारायणैः < > अनश्रत्पारायणैः इति पाठे. । l) षस. । उप. = वेदाध्ययन- । m) षस. । n) नाप. । षस. । o) विप. (अग्निहोत्र-पात्र-) । तस. । p) अनायसानि इति कांसं. ।

†अन्-अश्य^a- -श्याः^b हिश्रौ ६, ७, ८; हिग्र १, २९, १.

†अ-नश्यत्^c- -श्यतः^d आपश्रौ १६, ६; ४; हिश्रौ ११, १, ६९.

†अन्-अश्रु^e- -श्रवः आमिग्र ३, ७, २ : १०; बौपि १, १७ : ३०; -श्रू बौश्रौ ६, १५ : २७; माश्रौ २, १, ४, २७.

अन्-अश्रु-नयन^f- -नः कप्र ३, २, ११.

अन्-अश्रील-दान^g- -नम् या ६, २३.

†अन्-अश्व^h- -श्वः आश्रौ ७, ७, २; शाश्रौ १०, ४, १४; ऋश्र २, ४, ३६.

?अनश्वतःⁱ माश्रौ ६, १, २, २६; वाश्रौ २, १, २, १.

अन्-अश्वत्थ- -थः निस् ९, ९ : ३७.

अन्-अश्वमेघ^j- -घे शुप्रा ५, ३६.

अ-नष्ट, ष्ट^k- -†ष्टः माश्रौ ३, १, २, ५; अप्राय ४, १; -ष्टम् आपध १, १४, २८; हिध १, ४, ५७; -ष्टाः वाश्रौ १, २, १, ९१.

अनष्ट-गु^l- -गुः आपश्रौ २३, १३, ११.

†अनष्ट-पशु^m- -शुः आमिग्र ३, ५, ४ : २; बौपि १, ३ : १२; या ७, ९.

अन्-अष्टकⁿ- -कः आग्र २, ४, ११; बौग्र २, ११, ६१.

अनस्^o- पाउ ४, १८९; पाग ५, ४, १०७; -नः, -नसः आश्रौ; या ११, ४७७; -नसा आश्रौ; या २, २७†; -नसाम् मीस् १२, १, १६;

-नसि आश्रौ; -नसी बौश्रौ; -नसे वाधूश्रौ ४, ९०, ६; भाग्र ३, १३ : १६; -नांसि आपश्रौ.

आनस^o- -सान् वाश्रौ १, २, ४, २१.

२अनडु(ड-उ)ह^o, > ध- पा ८, २, ७२; पाग ४, २, ८०; ३, ११८;

५, ४, १०७; १५१; -डुद्गयः कौस्; -डुहः आमिग्र; पावा १, १, ७२; ७, १, १; ८२; ९८; ८, २, ७२; -डुहा भाश्रौ; -डुहाम् लाश्रौ; -डुहि काश्रौ; -डुहोः जैश्रौ; -डुहौ माग्र.

अनडुही- पाग ४, १, ४१.

आनडुह^k- -हः गोग्र २, ९, ५; -डुहम् शाश्रौ; -हे काश्रौ; -हेन शाश्रौ १७, ३, ५; द्राश्रौ ११, १, १; लाश्रौ ४, १, १; आग्र ४, ६, १४; कौग्र २, ४, २४; शांग्र २, ७, २८; आमिग्र ३, ८, १ : १९; बौपि १, १४ : १७; वाग्र ४, १३; कौस् ७२, ४०; आपध १, ९, ५; हिध १, ३, ५.

आनडुही^l- -ही शुग्र १, २८८; २, १२५; ४, ५०.

आनडुह-शकृत्-पिण्ड^o-

-ण्डम् कौस् ५३, २.

आनडुहक- पा ४, ३, ११८.

अनडुच्छ(त्-श)त्^o- -तम् काश्रौ २२, ९, ६; आपश्रौ २२, ९, २२; बौश्रौ १८, ३८ : १०; २३, १८ : ३७.

अनुडुत्-क- पा ४, २, ८०.

अनडुत्-पशु^o- -शुः आपश्रौ १, ३, १, ५; -शुम् आपश्रौ १, ३, २; भाश्रौ १, ३, ५.

अनडुत्-पुच्छ- -च्छम् काश्रौ २१, ४, २३.

अनडुत्-सहि(त>)ता- -ताम् शंघ ४४०.

अनडुत्-सांपद^o- -दम् कौस् २०, २६.

अनडुद्-अर्ह^o- -र्हम् आपश्रौ १३, २५, ६.

अनडुद्धि(द्-ह) रण्या (रय-अ) श्वा(ध-अ)ज^o- -जानाम् काश्रौ २२, ५, ५.

अनडुद्-भार^o- -रे गौध २२, २३.

अनडुद्-वत्- -वत् वाध २, ३५.

अनडुद्-वर^o- -रम् बौश्रौ ४, ११ : २९; ७, ४ : २३.

अनडुद्-वाजिन^o- -जिनम् अप ६८, ५, ३०,

a) विप. । बस. । b) पाभे. वैप १ अ-क्षुभ्याः परि. टि. द्र. । c) वैप १ द्र. । d) पाभे. वैप १ परि. अनश्यतः टि. द्र. । e) वैप १, परि. च द्र. । f) विप. । तस. उप. बस. । g) नस. । h) विप. । बस. उप. < गो- । i) विप. बस. उप. < अष्टका- । j) विप. । तस्येदमीयः अण् प्र. (तु. आपश्रौ १, १८, ७ माश्रौ १, २, १, २३) । k) विप. (गोमय-, चर्मन्- प्रभृ.) । तस्येदमीयः अण् प्र. । l) विप. (ऋच्-) । मास्य देवतीये अणि स्त्री. ङीप् प्र. । m) कस. > षस. । n) षस. । o) षस. उप. नाप. =पार्श्वस्थि- । p) विप. (कर्मन्-) । तस्येदमीये अणि उप. वृद्धिः उंसं. (पा ७, ३, १०) । यद्वा बस. उप. स्वार्थे अण् प्र. । q) विप. (हिरण्य-) । मलो. बस. । r) द्रस. । s) तद्धिताथे कप. । प्रमाणे प्र. लोपः उंसं. (पावा ५, २, ३७) । t) मलो. कस. ।

अनडुद्-व्याघ्र-सिंह^१- -हानाम्
 अप ५, ३, १.
 ✓ अनडुद्, अनडुद्गते पावा ६,
 १, ६८,
 अन(स् >)ङ्-वाँह- -वान् आश्रौ;
 कौस् ६६, १२^१.
 अन(स् >)ङ्-वाह- -वाहः बौश्रौ;
 -^१वाहम् शाश्रौ ८, १८, १०;
 शुप्रा ३, ४५; -वाहौ काश्रौ.
 अनङ्वाही- पाग ४, १, ४१.
 अन(स् >) :-शाखो(खा-उ) खा-
 शम्भो(म्या-उ)पवेष-कपाले(ल-
 इ)ध्मो(ध्म-उ)ल्लखला(ल-आ)
 दि^१- -दयः शुअ १, ८.
 अनः-संमित- -तम् काठश्रौ ९२.
 अनोऽधस(ः) माश्रौ १, १, १,
 ५०.
 अनो-मन्त्र- -न्त्रान् माश्रौ १, २,
 १, २३.
 अनो-युक्त- -क्तम् आपश्रौ २०,
 ७, ५; २२, ७; वाधूश्रौ ३, ९९ :
 ६; हिश्रौ १४, २, १८; ५, ५;
 गौध २८, ७; -क्ते आपश्रौ २०,
 ७, ६; २२, ८; हिश्रौ १४, २,
 १८; ५, ६.
 अनो-युग- -गम् बौग २, १, १६.
 † अनो-वाह^०- -वाहौ बौश्रौ १५,
 २३ : ९; २६ : ११; २६, ११ :
 ७; वाधूश्रौ ३, ८६ : ५; हिश्रौ

१४, ३, १९.
 अनो-वाह^१- -ह्यः भाश्रौ ६, ६, १२;
 -ह्यम् आपश्रौ ६, २८, ४; वैश्रौ
 २, ११ : ३.
 अनो(नस्-अ)इमा(श्म-अ)य-
 (स् >):-सरस्^१- -रसाम् पा
 ५, ४, ९४.
 अन-असूय^१- -यः अप ४४, ३, १०;
 वाध ६, ८; विध ७१, ९२; हिध
 १, १, ९९^१.
 अन-असूया^१- -या आपध १, २३,
 ६; विध ९९, ५; हिध १, ६,
 १४; गौध ८, २१.
 अन-असूयु^१- -युः वाध २९, २०;
 शंघ २१८; २४४; आपध १, ३,
 २४^१; २०, ५; हिध १, ६, १९;
 वृदे ६, १४२.
 अन अस्तमित^१- -ते शाश्रौ २, १७,
 ७; काश्रौ ४, ११, १५; ७, ४, १७;
 ८, ९, ६; १२, ४, २२; काश्रौसं
 २८ : ११; बौश्रौ २४, ३१ :
 ११; भाश्रौ ९, ११, २; वाश्रौ
 १, ५, २, ७; शांश्रु ५, १, ५;
 कौस् ८३, २७^१; बौध २, ४, १३.
 अनस्तमिता(त-अ)नुदित^१- -तयोः
 काश्रौ ४, १३, २.
 अन-अस्ति^१- -स्तेः पा ८, २, ७३.
 ?अनस्त्या^१ शाश्रौ १२, २१, २^१.
 अन-अस्थि^१- -स्थिभिः आपश्रौ ७,

२४, ११; वैश्रौ १०, १९ : ६;
 हिश्रौ ४, ५, १२; -स्थीनाम्
 माश्रौ १, ८, ५, २०; -स्थीनि
 काश्रौ ६, ८, १२; -स्थनाम् शंघ
 ४०९; विध ५०, ४६; ४७.
 अन-अस्थिक^१- -कानि आमिगृ ३,
 ५, ६ : ९; बौपि १, ४ : २५;
 हिपि ५ : ४.
 अन-अस्थिमत्- -मताम् वाध २१,
 २५; गौध २२, २३.
 अन-अहन्^१- -पाग ६, २, १६०.
 अनहर जात^०- -तः शाश्रौ १४,
 ५१, १.
 अनहर्जात-ता- -तया, -ताम्
 शाश्रौ १४, ५१, १.
 अन-अहङ्कार^१- -रः बौध १, २, २१.
 अन-अहोरात्र^१- -त्राणाम् पा, पावा
 ३, ३, १३७.
 अन अह्लाद^१- -दम् माशि ५, ४.
 ?अन अह^१- -हानाम् शौच ४, ८६.
 †अना^१- -ना आश्रौ ७, ८, २; वैनाश्रौ
 ४०, ४; ४१, २०.
 २अना- इदम्-द्र.
 अन-आकाङ्क्ष^१- -ङ्क्षे पा ३, ४, २३.
 अन-आकार^१- -रः तैपा १६, १६;
 शौच १, ७९^१.
 अन-आकारा(र-अ)न्त^१- -त्व-
 -स्वात् पावा १, ३, ९.
 अन-आकारो(र-उ)पध^१- -धः ऋपा

a) द्वस. । b) पाभे. वैप १, ८१२ m द्र. । c) पाभे. वैप १ परि. अनड्वान् मा २२, २२
 टि. द्र. । d) द्वस. > बस. । e) विप. (अनडुद्-) । उस. उप. ण्विः प्र. (पा ३, २, ६४) । f) विप.
 (भाण्ड-) । तृस. । उप. ण्यत् प्र. । g) विप. । बस. । h) सपा. अनसूयः <> अनसूयुः इति
 पाभे. । i) तस. उप. भाप. । j) तस. उप. विप. । k) तस. । l) तस. उप. < ✓अस् [भुवि] ।
 m) अर्थः व्यु. च ? । n) पाठः ? शोधार्थं तु. टि. वैप १ स्वस्त्या । o) विप. । पूष. = निषिद्ध-काल-
 (= मूल-नक्षत्र-) । सस. । p) तस. > द्वस. । q) = उदात्त- । तस. । उप. तस. = अनुदात्त- ।
 r) विप. । बस. । उप. अर्थः ? । s) वैप १ परि. द्र. । t) विप. (वाक्य-) । तस. उप. कर्तरि अच् प्र. (तु.
 पाका. प्रभृ.) । यद्वा. बस. उप. < आ-काङ्क्षा- । u) = आकारभिन- [इकार-प्रभृ.] । तस. । v) = अनाह् (पा १,
 १, १४) । w) विप. । तस. > बस. ।

७,७.
अन्-आकृत^a - तेन निस् ९, १० :
 २७१.
अन्-आकृति^b - ति: पावा १, १, १.
†अन्-आकाक्ष^c - क्ष: शांश्रौ १२,
 २१, १२; १६, १३, १०.
अन्-आक्रन्द^d - न्दम् विध २०, ३८.
अन्-आक्रान्त- -न्तम् कप्र ३, १०,
 १६.
अन्-आक्रोशक^e - क: कौष्ट ३, ११,
 ९; शांष्ट ४, १२, ११.
अन्-आक्रोश्य^f - श्यम् आपध १,
 २६, ३; हिध १, ७, १४; -श्यान्
 माष्ट १, ३, ४.
अन्-आख्या^g - ख्याम् लुसू ३, २ :
 ३२.
अन्-आख्यात, ता- -तम् काश्रौ
 ५, ५, ८१; शुअ ३, २०३; -ता:
 आपमं २, १८, ४१; भाष्ट २, ९ :
 १६; हिष्ट २, ९, ४.
अन्-आख्यात-पर^h - र: भासू १, ८.
अन्-आख्याय विध ५, ४५.
अन्-आगच्छत्- -च्छति आपश्रौ ९,
 १८, ५; हिश्रौ १५, ८, ४.
†अन्-आगत, ताⁱ - तम् बौश्रौ १७,
 ५० : १; वाधुश्रौ २, १० : ६;
 बृदे ७, ३०; -तान् जैष्ट २,
 ८ : २५; -ताम् बौध २, ४, १५;
 -ताय वाधुश्रौ २, १० : ६; -ते
 शांश्रौ ३, २, १; बौश्रौ २८, ११ :
 २; -तेन अप १, ५, ६.

अनागत-योग- > ष्योगिन्ⁿ
 -गिनि अप १, ५, ७.
१अन्-आगम^l - म: मीसू ६, ३, १३;
 -मात् आपध १, ७, २६; हिध
 १, २, ८३.
२अन्-आगम^m - मे पावा ८, ४, २.
अन्-आगमयत्- -यन् भाश्रौ १०,
 ३, १७; हिश्रौ १०, १, ३३.
अन्-आगमिष्यत्- -ष्यत: अअ
 १६, ६१.
‡अनागर्तबहुलौषधिम्^k बौषि १,
 ४ : २.
†अन्-आगस्^o - गस: शांश्रौ ९,
 २७, २; आपश्रौ ६, २३, १;
 ७, १७, २; १०, १७, ११; १२,
 १०, २; बौश्रौ २८, ९ : ८;
 भाश्रौ १०, १०, १५; माश्रौ ३,
 ५, १३; वैश्रौ १५, ११ : १८;
 हिश्रौ ४, ३, ५५; ८, ३, ९; ९, ५,
 ३६; १०, २, ५८; पैताश्रौ २४,
 १; विध ४८, १०; भाशि ४६,
 २; -गसम् आपमं २, १२, ६;
 आमिष्ट २, १, ४ : ६; हिष्ट २, ३,
 १०; -गा: हिश्रौ ६, ३, १७;
 माष्ट २, १७, १; बृदे ४, ६०; या
 १०, ११; शुप्रा ४, ७८.
अनागास्-त्व- -त्वम्^l या ११,
 २४१.
अनागो-हत्या^m - त्या अअ १०,
 ११.
†अना(न्-आग >)गाⁿ - गाम् बौश्रौ

१७, ४४ : १४; जैश्रौ २ : २२;
 आपमं २, १०, १०; पाष्ट १, ३,
 २७; आमिष्ट ३, ५, ८ : ९; काष्ट
 २४, १९; बौष्ट १, २, ५०; बौषि
 १, ७ : १०; माष्ट १, ९, २३; वाष्ट
 ११, २३; हिष्ट १, १३, १२; जैष्ट
 १, १९ : ४५; कौसू ९२, १४.
अन्-आघ्रत्- -घ्रन्त: बौश्रौ १६,
 २० : १२.
अन्-आङ्^o - आङ् पा १, १, १४.
अन्-आचमि^p - मे: पा ७, ३, ३४.
अन्-आचम्य आश्रौ ५, ६, ३.
अन्-आचरणीय- -यम् वाध २२, १.
अन्-आचरित- -ते ऋत ४, ६, १०.
अन्-आचान्त- -न्तेषु आष्ट ४, ७,
 २८.
अन्-आचार- -र: लाश्रौ १०, १,
 १५; ८, ५.
अनाचार-रूप, पा^o - पा: कौसू ११६-
 ११८, १.
१अन्-आचार्य^q - र्य: आपध १, ८,
 २७; हिध १, २, ११५.
२अन्-आचार्य^r - र्याय आमिष्ट ३,
 ७, ३ : २६; बौषि २, २, ३;
 हिषि १९ : १४.
अन्-आचार्य-संबन्ध^s - न्धात्
 आपध १, ६, ३५; हिध १, २,
 ५७.
अन्-आचिता (त-आ) दि^t
 - दीनाम् पा ६, २, १४६.
अन्-आच्छादन^u - नात् पा ६,

a) वैष १, परि. च द्र. । b) विप. । बस. । c) विप. । बस. उप. = पृष्ठ-रत्नक- । d) तस. ।
 e) विप. (पित्राचार्यादि-) । तस. उप. < आ/क्रुञ् + ण्यत् प्र. । f) तस. । g) विप. (समास-) ।
 तस. उप. बस. h) विप. (नक्षत्र-) । कस. उप. मत्वर्थीय: इति: प्र. । i) तस. उप. भाप. ।
 j) बस. उप. = पाणिनीय-संज्ञा- । k) तु. पृ ७२ ० टि. द्र. । l) पाभे. वैष १ परि.
 अनागान् च ३, ५४, १९ टि. द्र. । m) वैष १ द्र. । n) विप. । बस. उप. = आ/चम् ।
 o) विप. (पिपीलिका-, नीलमक्ष-, मधुमक्षिका-) । बस. । p) तस. उप. षस. । q) विप. । तस. > बस. ।
 r) बस. उप. भाप. ।

२, १७०.

अन्-आच्छादिता (त-अ) भिवर्ष-
ण^a - णे वेताश्रौ १२, १२.

अन्-आच्छिन्न-पवि (त्र >) त्रा^b-
-त्रा हिश्रौ १, ७, २८°.

अन्-आच्छिन्न-स्तुक^d - -कस्य
वाश्रौ १, ६, १, २६.

अन्-आच्य^e आपश्रौ २४, ३, ९.

अन्-आज्ञात^f - पाग ८, १, ६७;
-तः निन् ७, ११ : २२;

-ऋतम् आपश्रौ ३, १२, १^g;
९, १२, १२; वीश्रौ २७, २ :

१०; भाश्रौ ३, ११, १; वैश्रौ
२०, १० : ५; २६ : ३; हिश्रौ

२ : ६, ४; निम् ७, ११ : १७\$;
आमिगृ १, ५, ४ : १७; कौस्

११९, १\$; -ताः अप्राय ४,
१; -तात् आगृ ३, ११, १;

-ने आपश्रौ ९, १२, १२; वैश्रौ
२०, १ : ६; २६ : ३; द्रागृ

३, ४, २८; कौस् ९२, २६;
गौध २८, ४९; -तेषु गोगृ ४,

४, २३; अप्राय ६, ९; अप १९,
१, ११.

अनाज्ञात-जपा(प-आ)दिक^h - -कम्
काण्ड ४१ : ३.

अनाज्ञात-दोषⁱ - -षेषु वैश्रौ २०,
२६ : ४.

अनाज्ञात-प्राय (स् >) श्वित्त^j -

-त्तम् बौगृ ४, ९, ६; -तेषु वीश्रौ
२७, २ : ९.

अनाज्ञात-प्रायश्वित्त^k - -त्तये निम्
७, ११ : १७; ३३.

अनाज्ञात-बन्धु^l - -न्धोः वैश्रौ ६,
५ : १; हिश्रौ २१, ३, १७.

अनाज्ञात-योग^m - -गान् निम् ७,
११ : ३०.

अनाज्ञाता (त-आ) ज्ञात-कृतⁿ -
-तस्य वेताश्रौ २३, १२.

अन्-आज्य-भा(ग >) गा^o - -गा
आश्रौ ४, ३, ३.

अन्-आज्यलिप्त^p - -प्तम् काश्रौ
४, ४, ९; वीश्रौ ५, ४ : १०; ११;

-त्तन वीश्रौ १७, ४५ : ८;
-सौ बौश्रौ ५, ९ : ११.

अन् आडम्बर^q - -रात् शुप्रा ३, ४८.

अन्-आढ्य^r - -ढ्यः आपश्रौ ५,
२०, १८; भाश्रौ ५, १३, २; वैश्रौ

१, १५ : १०; जैश्रौ २२ : २१.
ऋअन्-आतङ्ग^s - -क्तम् आपश्रौ ११,
२१, ८°; वैश्रौ १४, २० : ७.

अन्-आतङ्क्य^t - -ङ्क्यम् हिश्रौ ७,
८, ६८°.

अन्-आतच्य वीश्रौ ६, ६ : १३; १६.
अन्-आतत^u - -तम् शाश्रौ १२,
१८, १.

ऋअन्-आतुर^v - -रः अप ६३, ५,
६; कप्र १, १०, १; विध २८.

५२; वैध २, १४, ६; -रम् बौगृ
४, २, ९; -ऋण आश्रौ २, ५,

९; आपश्रौ ६, २५, ७; भाश्रौ
६, ५, ६; भाश्रौ १, ६, ३, १२;

वाश्रौ १, ५, ४, ३६; हिश्रौ ६,
६, २; ७, ७.

अन्-आत्त - -त्तस्य काश्रौ ९, ५, ११.
अन्-आत्ति^w - -स्यै भाशि ८६#.

अन्-आत्मनेपद-निमित्त^x - -त्ते
पा, पावा ७, २, ३६.

अन्-आत्म्य^y - -त्म्यम् आपध १,
२३, ५; हिध १, ६, १३.

अन्-आत्यय^z - -यः बौगृ २, ५, ३;
३, १३, ५; आपध १, १, २७;

वीध १, २, १३; हिध १, १, २४.
अन्-आत्रेयी, रयी^{aa} - -यीम् वाध २०,
३७; -य्याम् गौध २२ १९.

अ-नाथ^{ab} - -थः आमिगृ ३, १०, १ :
६; वीपि ३, ५, २; -थम् विध

१९, ५; -थानाम् वैगृ ५, ८ :
१०; -थे हिश्रौ १५, ५, ३९.

अनाथ-प्रव्रजित-बाल-वृद्ध-तरुण-प्र-
जाताः^{ac} वाध १९, २३.

अ-नाद^{ad} - -दः ऋप्रा १४, १९.
अन्-आदर^{ae} - -रे पा २, ३, १७;
३८.

अन्-आदरण^{af} - -णम् काश्रौ २५,
९, ३.

अनादान्तम् निम् ५, ८ : १६.

a) तस. > सस. । b) विप. । तम. > वस. । c) पाभे. वैप १ परि. अच्छिन्नपत्रा काठ १, ११ टि. द्र. । d) वैप १, परि. च द्र. । e) तस. उप. < आ/अञ्च । f) विप. । वैप १ द्र. । -तम् इति क्वचित् वा. क्वि. । g) कस. > वस. । h) वस. । i) तस. । j) कस. । k) विप. (एनम्-) । द्रस. > तस. । l) विप. (प्रायणीयेष्टि-) । वस. > वस. । m) विप. । तस. > तस. । n) विप. । तस. उप. < आ/तन्ञ् । o) सपा. °तक्तम् <> °तङ्क्यम् इति पाभे. । p) तस. उप. < आ/दो । q) तस. उप. वस. । r) तस. उप. भाप. < आत्मन्- । s) तस. । उप. ? । अत्यय- इत्यस्य वावि. इति वा आ + अ° इति वेति हरदत्तः । < ✓*आत् [उल्लेघने =त्रात्यभावे] > आत्य- > आत्यमय- [त्रात्यकार-] > नैप्र. यनि. इति मतम् । t) विप. । तस. उप. = रजस्वला-स्त्री- । u) द्रस. । तरुण-प्रजाताः इति पाठः ? । प्रदाताः इति सर्वत्र मूको. Bühler च, °दातारः इति कृष्णपरिहितः । v) तस. । अर्थः प्राति. च ? ।

अन्-आदि^a- -देः पावा ३,४, १०२;
७,१,३; ८,१,१८.

अनादि-स्व- -स्वम् पा १,१, ७३;
-त्वात् पावा ४, १, १५८; २,
९१; ३,१५.

अनादि-लोप- -पः पावा ७,४,६०.

अन्-आदि-निधन^b- -नम् विध
६५, १.

अन्-आदि-मध्य-निधन^b- -०न
विध ९८,१३.

†अन्-आदिष्ट,ष्टा^c- -ष्टः आप्रथौ
२०,१३,११; बौध्रौ २४,८:१;
९; ९:४; हिथ्रौ ६, ५, ३१;
निसू ९,१०:१८; १०,८:१४;
-ष्टम् शांथ्रौ १, १, १७; बौध्रौ
६,८:३; २४,८:११; ९:१;
बौध्र ४, ९, ११; शुभ्र ४,
१६१; -ष्टा बौध्रौ २४, ८:
१६; निसू ८, ११:४; २०;
९, १२:७; १०, ३:१२;
-ष्टा: काथ्रौ २५, १२, १०;
-ष्टान् काथ्रौ ९, ५, २२; बौध्रौ
२७,१४:२०; -ष्टानाम् लाथ्रौ
६, ६, ११; -ष्टानि काथ्रौ २५,
१४,३५; बौध्रौ २६,३०:१; २;
निसू ११, १२:४; -ष्टाम्
अथ्र १५,६; -ष्टे बौध्रौ २४,
८:८; १०; १६; १९; ९:१;
भाथ्रौ १,१,१८; लाथ्रौ १०, ३,
८; निसू १०, १२:११; -ष्टेषु
बौध्रौ २९, १२:१; वाध २३,
४७.

अनादिष्ट-नृचै (च-ए) क (क-क्र)-
चै^b- -र्चानि लाथ्रौ ६,४,६.

अनादिष्ट-दक्षि(ण>)णा^d- -णा:
बौध्रौ १३,१:१८; २४, २९:
१०; -णासु माथ्रौ ५,१, ५, १;
२,१०, २.

अनादिष्ट-देवत,ता^d- -तम् आमिगृ
१, १, ४:२५; -ता: द्राथ्रौ
५, ४, २९; या ७,४; -ते भागृ
१, ४:१४; हिगृ १, ७, १९;
-तेषु कागृ २२, ३; मागृ २,
१०, ८.

अनादिष्ट-प्रायश्चित्त^d- -त्तेषु शंघ
४५०.

अनादिष्ट-याज्या-पुरोनुवाक्या^b-
-क्यासु शांथ्रौ १,१७,९.

अनादिष्ट-वृक्ष,क्षा^d- -क्षाणि आप्रथौ
१२, १, ५; भाथ्रौ १, १६, ७;
हिथ्रौ १, ४, ३८; ८, १, ३५;
-क्षाम् वाथ्रौ २,१,२, ३०.

अनादिष्ट-व्यूह^d- -हेन निसू ८,
१०:४२.

अनादिष्ट-स्था (न>)ना^d- -ना:
बौध्रौ १३,१:४.

अनादिष्टा(ष्ट-आ)ज्या(ज्य-अ)र्थ^e-
-र्था: भाथ्रौ २,१२,६.

अनादिष्टा(ष्ट-अ)न्त^d- -न्तान् द्राथ्रौ
१,१,५; लाथ्रौ १,१,५.

अनादिष्टा(ष्ट-अ)र्थ- -र्थम् पावा ७,
१,३७; २,१०७.

अन्-आहृत- -तम् वाध २, १२;
बौध्र १, २, ५०; -ता: विध
३१, ९.

अन्-आहृत्य बौध्रौ १६, ४:३;
९; १७, ५:१६; १८, २६:
१०; ४८:२७; ४९:११; १९;

वैथ्रौ २, १०:७; हिथ्रौ १०,
७,५; वैध १,९,१३; १५; भाशि
१७, १८.

अन्-आदेश^f- -शा: ऋथ्र ३, १७;
-शस्य पावा ६, ४, १६^२;
-शात् बौध्रौ; -शो आथ्रौ;
पा ७,२,८६; पावा ३,३, १९;
४,६७; ४, १, ७८; ५,३, १०;
उनिसू ६:२२; मीसू ७,३,१६;
-शेन अशां ११, २; अथ्र १,
४१,२^१.

अन्-आदेशा(श-आ)दि^f- -दे: पा
६,४,१२०.

†अन्-आद्य^g- -द्य: वाध १,
४५; -द्यम् बौध्रौ १४, २३:
२८; २९; आपध १, १९, १४.

अनाद्या (द्य-अ) पेय-प्रतिषिद्ध-भो-
जन^h- -ने बौध्र ४,२,१४; -नेषु
बौध्र ४,२,१३.

२अन्-आद्यⁱ- -द्ये आगृ ४,७, ५;
कौसू २५,२९.

अन्-आद्य(दि-अ)न्त^l- -त्व- -त्वात्
विध २०,२१.

अन्-आद्यु(दि-उ)दात्त^m- -त्तम् शुप्रा
१,१६२; -त्ते तैप्रा ८,१०.

अन्-आधार^k- -रम् वृदे ८, १३९.

?अनाधिष्ट- -ष्टम् मांश ५, ४.

अन्-आधृष्ट,ष्टा^c- -ष्टः शांथ्रौ;
-ष्टम् आथ्रौ; -†ष्टा काथ्रौ
२६, ३, ५^१; माथ्रौ ४, २,
२०^१; -ष्टा: शांथ्रौ; -ष्टानि
शांथ्रौ ८,१६,१^१; -ष्टाम् शांथ्रौ
१०, १९, २^१; -ष्टाय बौध्रौ
३, १३:११.

a) विप. । तस. । b) विप. बस. उप. द्रस. । c) वैप १, परि. च द्र. १ । d) विप. । बस. ।
e) कस. उप. षस. । f) तस. उप. पावा. तु पारिभाषिक-संज्ञा । g) विप. तस. > बस. । h) द्रस. > षस. ।
i) विप. । तस. उप. १भाद्य- । j) बस. > द्रस. । k) तस. । l) पाभे. वैप १ परि. अनाधृष्टा मा ३७,१२
टि. द्र. । m) नाप. (प्रजापति-तनू-) ।

अनाद्यष्ट-रथ^a -था: शांश्रौ ८, २३, १[†].
 †अन्-आद्युष्य, प्या^a -प्य: शांश्रौ;
 -प्यम् आश्रौ ४, ५, ३; १२, २^b;
 शांश्रौ; -प्या आश्रौ ८, १३,
 १३^c; आपश्रौ १५, ७, ६^d;
 बौश्रौ ९, ७: ५^d; माश्रौ ११,
 ७, १५^d; वैश्रौ १३, ९: १२;
 हिश्रौ २४, ३, २^d; -प्या: शांश्रौ
 १०, ६९, २; -प्याम् शांश्रौ १०,
 १९, २^e.
 अन्-आध्यान^a -ने पा १, ३, ४६; ६७.
 अन्-आनत^a -त: † ऋअ २, ९,
 १११; साअ १, ४६३; -तस्य
 या १२, २१[†].
 अन्-आनन्त^a -र्यात् पावा७, १, ३.
 अ-नाना (ना-अ) र्थⁿ -र्थे शुप्रा २,
 १७.
 अन्-आनुजा^a -जाम् पागृ ३, ३, ५[†].
 अन्-आनुद^a -द: ऋप्रा ९, ३३[†].
 अन्-आनुपूर्व्य^a -र्थे ऋप्रा ११, १३.
 अन्-आनुपूर्व्य-संहि (त >) ता[†] -
 -ता: ऋप्रा २, ७८.
 अन्-आपद्^a -पसु बौश्रौ २९, ८:
 १८; आपध १, ८, २५; हिध १,
 २, ११३; -पदि निस् १०, ७:
 १३; कप ३, ६, १५.
 अन्-आपद्यमान -नानि लाश्रौ ६,
 ४, ५.
 अन्-आपन्न -ज्ञानि निस् १०, ८:

३५.
 अन्-आपाके शौच २, ९४^k.
 †अन्-आप्त, सा^a -स: शांश्रौ १०,
 १९, २; -सम् शांश्रौ १६, १०,
 १[†]; वाधुश्रौ ४, ११: १७; १९;
 २१; ३१: ३[†]; ४; ५; निस् १०,
 ७: २६; कौगृ ३, ११, ३५[†];
 शांगृ ४, ११, ३[†]; -सस्य बौश्रौ
 १६, ६: १५; -सा आश्रौ ८,
 १३, १३; आपश्रौ १६, १८,
 ७^m; वैश्रौ १८, १५: २०^m;
 हिश्रौ ११, ६, २९^m; -सा:
 शांश्रौ १०, १९, २; अप ३२, १,
 १७; १८; अअ ५, ६; -साम्
 शांश्रौ १०, १९, २.
 अन्-आप्त-कामⁿ -सा: निस् २, ३:
 २०; २१; २६; -मान् निस् २,
 ३: ३०; -मै: निस् २, ३: २७.
 †अन्-आप्य, प्या^a -प्य: शांश्रौ
 १०, १९, २; -प्या आश्रौ ८, १३,
 १३^c; -प्या: शांश्रौ १०, १९,
 २; -प्याम् शांश्रौ १०, १९, २^c.
 अन्-आप्रीत^a -न्ते आपध १, १७, ९;
 हिध १, ५, ४१; -तेन भागृ १,
 २२: ९; २, ७: २; आपगृ १४,
 १४ⁿ; हिगृ २, ७, २.
 अन्-आप्लवमान -न: लाश्रौ ९,
 २, १८.
 †अन्-आभु^a -०भो^p माश्रौ १, ६,
 १, ४१; वाश्रौ १, ५, २, ४०.

‡अनाभ्याख्यायुक^f -कम् वाधुश्रौ
 ४, ६०: १२.
 अ-नाम-गृहीत^a -तम् आपश्रौ १,
 ९, ५.
 ‡अन्-आमति- -ति: वाश्रौ १, ४,
 ४, ६[†].
 अ-नामन्^a -> ०म-त्व- -त्वात् काश्रौ
 ५, ४, ५; मीसू ७, ३, २१.
 अन्-आमन्त्रित -त: माश्रौ ५, २,
 १५, १२; वाश्रौ १, १, ५, ११[†];
 -तानि शुप्रा २, ४८; -ते शुप्रा
 २, ३८.
 अन्-आमन्व्य द्राश्रौ २, ४, ८; लाश्रौ
 १, ८, ६.
 †अन्-आमय^a -यम् आपध १,
 १४, २७; हिध १, ४, ५६.
 अनामय-काम -मस्य वैताश्रौ ४३,
 ३२.
 ‡अन्-आमय^a -य: कौस् ७४,
 २०^u; -यम् शांगृ ६, ६, १६;
 अप ११, २, ५; १५, १, ९; ३८,
 ३, ७; शंघ १२३; शैशि १६७;
 याशि १, ३३; -या: कौस् ७०,
 १; अप्रा ३, ४, १.
 अनामय-त्व- -त्वम् अप ५१, ३, २.
 अन्-आमयत् -यता आपश्रौ ३२,
 ७, २१; हिश्रौ १७, ३, २०^v.
 अन्-आमयाविन् -विन: आपश्रौ
 १६, ७, ६; वाश्रौ २, १, २, ९;
 हिश्रौ ११, २, ४.

a) वैप. १, परि. च द्र. । b) पाभे. वैप १ परि. अनाद्यष्टम् तै ४, ४, १२, २ टि. द्र. । c) नाप. (प्रजापति-तन्-). d) पाभे. वैप १ परि. अनाद्यष्टा मा ३७, १२ टि. द्र. । e) तस. । f) व्यप. (परुच्छेप-पुत्र-). ग्यु. ? । g) तस. उप. भाप. । h) तस. उप. कस. । i) विप. । बस. । j) विप. । बस. उप. तृस. । k) तस. (तु. वैप १, ६६० i). l) नाप. (चारुडाल-). m) पाभे. वैप १ परि. अनासा काठ ३८, १४ टि. द्र. । n) विप. । तस. उप. बस. । o) विप. (शराव-). तस. उप. = उपभुक्त- । p) अनाद्यष्टेन इति सूको. । q) पाभे. वैप १ परि. ‡अनाभव- टि. द्र. । r) पाठ: ‡अनाभ्या^a इति शोध: (तु. संस्कृतु: टि.). s) विप. । तस. उप. तृस. । t) पाठ: ? । सपा. हिश्रौ ६, ५, १५ अमति: इति पाभे. (तु. तैआ ४, २२, १). u) उत्तरेण संधिरार्ष: । पाभे. वैप २, ३खं. अपाम: मंत्रा २, १, १४ टि. द्र. । v) ०ताम् इति पाठ: ? यनि. शोध: ।

अ-नाम-संप(न्न>)न्ना^०- न्नायाः
कौस् ४७, ३२.

अ-ना(मक>)मिका^०-कया काश्रौ
४, १४, २६; १६, ३, ३; ६, २९;
वैश्रौ ६, १० : १०; ७, १ : ४;
द्राश्रौ १२, ३, १२; लाश्रौ ४,
११, १३; आण १, २४, १५;
पाण १, ३, १८; १६, ४; ३, १०,
१९; आमिण २, ३, १ : ९; जैण
२, ५ : ५; द्राण २, २, ३४; कौस्
९१, ५; शंघ १६; ४५७ : ३०;
-का कौशि ३८; -काभ्याम्
द्राण १, २, १४; -काम् अप २८,
१, ३; -कायाः वैण १, २ : ८;
शंघ ४५८ : ३०; -कायाम् काश्रौ
७, ६, २५; वैश्रौ १२, १७ : ८;
आमिण २, ६, १ : ९; कौस् ७६,
८; माशि २, २; -के वैश्रौ १२,
१० : ३; १२ : २१.

अनामिका(का-अ)प्र^०- ग्रेण कप्र ३,
९, १९.

अनामिका(का-अ)कुलि^०- ल्या
वैश्रौ २, ५ : ९.

अनामिकाकुलि-नाह^०-हाः वैश्रौ
११, ११ : २.

अनामिका(का-अ)कुष्ठ^०- छाभ्याम्
काश्रौ २, २, १६; वैताश्रौ ३,
११; -छेन^० पाण १, ३, १९.

अनामिको(का-उ)पान्त^०- न्ताभ्याम्
वैण १, ३ : ९.

अ-नाम-संप^०- तम् बौश्रौ २, १६ :
८; २० : २५; आपश्रौ ५, ९, ८;

माश्रौ ५, ५, ५-७; माश्रौ १,
५, ३, ८; वाश्रौ १, ४, ३, १;
७; २२; वैश्रौ १, ९ : ७; हिश्रौ
३, ३, २७; २८^२.

अ-नाम-नवति-नगरी^०- रीणाम्
पावा ८, ४, ४२.

अ-नाम-आज्ञात- -तम् आपश्रौ ९, १६,
६; १९, १४^१; कौस् ११९,
२^१; अप ७२, ४, ३^१; -ताः
आपश्रौ २४, १, ३५; -तानि
बौश्रौ २७, १४ : १; -ते वाश्रौ
१, १, १, ६८; ३, ६; मीस् १०,
८, २०; -तेषु माश्रौ १, ४, २, ६;
बौण ४, ५, २; ११, १; अशां १७,
३; मीस् २, १, ३२.

अनाज्ञात-प्रतिषेध^०- -धात् काश्रौ
८, ५, ३५; १६, ७, १६.

अनाज्ञात-प्रायश्चित्त^०- -त्तानाम्
माश्रौ ३, १, ६; अप्राय ४, १;
-तेषु माश्रौ ३, १, ६.

अनाज्ञात-मन्त्र-न्त्रा^०- -न्त्रम्
आपश्रौ १४, १२, २; -न्त्राणि
आपश्रौ १२, १, ६; -न्त्रासु
कौण १, ६, ३; शाण १, ९, १८.

अनाज्ञात-याज्या(ज्या-अ)नुवा-
क्या^०- -क्यानाम् माश्रौ ५, १,
५, २४.

अनाज्ञात-वचन^०- -नम् मीस् ९, ४,
१४.

अनाज्ञात-वर-शेषासेचन^०-वर्जम्
काश्रौ ९, ६, २.

अ-नाम-आज्ञान^०- -नात् आपश्रु २१,

३; हिश्रु ६, ६३; मीस् ३, ५,
२८; ९, ३, २७.

अ-नाम्यु(मि-उ)पध^०- -धः ऋप्रा
१३, २३.

अ-नाम-आग्नेडित- -तानि अप्रा ३, १,
६.

अ-नाम-आयत्- -यति विध ५, १३७^२.

अ-नाम-आयत(न>)ना^०- -नाः
बौश्रौ १४, ५ : १७; १९.

अ-नाम-आयता(त-अ)सु^०- -सुः कप्र २,
१, ९.

अ-नाम-आयास^०- -सः गौध ८, २१.

अ-नाम-आयुक्त- -क्तः बौश्रौ २६, ५ : ४.

अ-नाम-आयुध^०- -धासः ऋप्रा २,
७५; उम् २, १२.

अ-नाम-आयुष्य- -व्यम् आपध १, ५,
३; २, १९, २; हिध १, २, ३; २,
५, ७४.

अ-नाम-आयुस्^०- -युः आपश्रौ ९, १५,
२०; माश्रौ ९, १८, ९; वैश्रौ
२०, ३२ : १०; हिश्रौ १५, ४,
४०; -युषाम् वाध ११, २४.

अ-नाम-आरब्ध^०- -ब्धः वैश्रौ १, १ :
२२; माशि ९१.

अ-नाम-आरभमाण- -णः हिश्रौ ५, ४,
३६.

अ-नाम-आरभ्य आपश्रौ ८, १४, १४;
बौश्रौ ५, ११ : २२; माश्रौ १, १;
९; वैश्रौ ९, ६ : ४; लाश्रौ १०,
८, ८; निस् ६, १ : ७; १२ : १८.

अ-नाम-आरभ्य-वाद- -दः काश्रौ १, ३,
२९; -दाः मीस् ३, ६, १४,

०) विप. (नदी-)। तस. उप. तृस. । b) नाप. (अङ्गुलि-विशेष-)। बस. । c) सप्र. °कया<>

°कायाः इति पाभे. । d) षस. । e) कस. । f) विप. । बस. उप. = परिणाह- । g) द्वस. । h) समाहारे
द्वस. यद्वा मत्वो. कस. । i) द्वस. उप. = अङ्गुष्ठ- । j) वैप १, परि. च द. । k) तस. उप. द्वस. ।
l) सस. । m) विप. । बस. । n) विप. (इष्टि-)। बस. उप. द्वस. । o) तस. उप. माप. । p) विप.
(अनुस्वार-) । तस. > बस. । नामिन्- = षत्वप्रयोजक- अवर्योत्तर-स्वर- । q) तस. । r) अनापदि इति
जीसं. । s) = अनियमितपाण्य- । विप. । तस. उप. बस. । t) तस. उप. = आत्म-पीडा- ।

-दानाम् मीस् ७,४,२०.
 अनारभ्यवाद-त्व- -त्वात् मीस्
 ६,६,३.
 अनारभ्यवाद-प्रतिषेध- -घः
 मीस् ७, ३, २५.
 अनारभ्य-विधान- -नस्य मीस् १०,
 ८,१८; १२, २, ७; -नात् मीस्
 ९,१,३२; १०,५,५४; -ने मीस्
 १०,८,१.
 अनारभ्य-स्तन-कल्प^a- -ल्पः
 आप्श्रौ १०,१६,१५.
 अनारभ्या(भ्य-अ)भि-संयोग- -गात्
 मीस् ६,८,७;९.
 अनारभ्या(भ्य-अ)धीत^b- -तम्
 शुभ ३, २१६.
 अनारभ्यो(भ्य-उ)त्पत्ति^c-त्व-
 -त्वात् लाश्रौ ७,११,२०.
 अन्-भारभ्य- > भ्यत्व- -त्वात्
 काश्रौ १, ८,३;२०,८,२७.
 अन्-आरमत्^d- -मति आप्श्रौ ६,
 १४,१३.
 अन्-आरम्भ- -म्भः काश्रौ १, ४, १;
 ४, १, २५; २४, ७, २६; शंघ
 ३४१; पावा १, १, ४; ५, १,
 ५९; ६, १, ७; ६५; आज्यो ५, ४;
 मीस् ४, १, १९; -म्भे वैश्रौ १,
 ९ : २.
 अन्-आरम्भण^e- -णे या १०,३२१.
 अन्-आरम्भन्^f- -म्भी गौध ३,
 २५.
 अन्-आराधयत्- -यन्तम् या ५,

१७.
 अन्-आराशंस^g- -सेषु काश्रौ ९, १४,
 १२; जैश्रौ १४ : १७.
 अन्-आरोक^h- -कम् माश्रौ १, २,
 ६, ७.
 अन्-आरोग्यⁱ- -ग्यम् अप ७०^३,
 १७,६.
 अन्-आरोपित-कार्य^j- -र्यस्य वैगृ
 ५, १ : २.
 अन्-आरोहत्- -हति काश्रौ १६,
 ४, ३४.
 अन्-आर्जव^k- > -र्जव-पैशुन-प्रति-
 षिद्धाचार^l- -रेषु आप्थ १, २६,
 ७^३; हिध १, ७, १८^३.
 अनार्जव-पैशुन-प्रतिषिद्धाचारा (र-
 अ)नाद्यप्रादान^m- -नेषु गौध २५,
 १०.
 अन्-आर्त,र्ताⁿ- -र्तः आगृ ३, ८,
 १६; -र्तम् वीश्रौ १४, २३ : १७;
 कौण्ड ५, ३, ३०; आमिष्ट ३, ६,
 १ : २८; वीपि १, ९ : ४; -र्ता
 वीश्रौ २४, २२ : ४; वाधूश्रौ २,
 ६ : ६; आगृ ३, ८, १६; -र्ताः
 वीश्रौ १६, १६ : ९५; -र्ताम्
 वीश्रौ ३, २३ : ११; २७ : ५;
 वाधूश्रौ २, ६ : ६५; हिश्रौ २१,
 १, १; -र्तेन काश्रौ २५, ८, ५;
 वीश्रौ १४, २३ : २०; २५.
 अन्-आर्तव,वा^o- -वम् अप ७०^३,
 ७, ४; ८, २; -वा वैगृ ५,
 ९ : ४; अप ६४, ४, ६; -वाम्

वैगृ ५, ९ : १३; -वे पा ६, २, ९.
 अन्-आर्ति^p- -र्त्यै वीश्रौ १४, ४ :
 १४^१.
 अन्-आर्तेष्टि^q- -ष्टयः वीश्रौ १३, १ :
 ५.
 अन्-आर्द्र^r- -र्द्रम् आमिष्ट १, ७, १ :
 ६; २, ३, १ : ४; २ : ३; ४, ५ : ४;
 ९ : ३; १० : १; ११ : ४; ७,
 ५ : ३; जैगृ १, ६ : ३.
 अन्-आर्द्र-कर-मुख^s- -खः विध
 ६८, ३५.
 अन्-आर्द्र-पाद^t- -दः विध ६८, ३४.
 अनार्भव^u- -०^१व आप्थ्रौ ६, ११,
 ३; माश्रौ ६, १३, २; हिश्रौ ३,
 ७, ८६.
 अन्-आर्थ,या^v- -र्याम् आप्थ १,
 २७, १०; हिध १, ७, ३५. -र्यैः
 गौध २६, ८.
 अनार्थ-कर्मन्^w- -०र्मन् वाश्रौ ३,
 २, ५, ३१^१.
 अनार्थ-निवास^x- -सः या ६, ३२.
 अनार्या(र्य-अ)भिभाषण^y- -णम्
 आश्रौ १२, ८, ७.
 अन्-आर्ष^z- -र्षम् निसू २, १ : १६;
 ऋप्रा ११, ५८; -र्षयोः पा ४,
 १, ७८; -र्षात् ऋप्रा १, ५८;
 -र्षे अप्रा ३, १, ३; शौच १,
 ८१; पा १, १, १६.
 अनार्ष-त्व- -त्वात् मीस् ९, ३, ५.
 अनार्षा(र्ष-अ)न्त^{aa}- -न्तात् ऋप्रा ३,
 २३.

a) कस. उप. =स्तनदोह-L पयस्-] विधि- (तु. आप्थ्रौ ११, ४, ९; १०)। b) विप. ([कर्मविशेषे
 अविनिगुक्त-] मन्त्र-)। c) बस.। d) विप. (रद्र-)। तस. उप. =विरमत-। e) वैप १, परि. च द्र.।
 f) विप.। तस.। g) विप. (बर्हिस्-)। बस. उप. =छिद्र-। h) तस. उप. भाप.। i) विप.। तस.
 उप. बस.। j) द्रस.। k) 'नार्थ' इति पाठः ? यनि. शोधः (तु. गौध.)। l) विप.। तस. उप.
 < ऋतु-। m) नाप. (काम्येष्टि-)। तस.। n) विप.। तस. उप. बस. > द्रस.। o) पाठः ? 'भव-
 इति शोधः (तु. वैप १, १७० e; पाभे. वैप १ परि. च)। p) विप. (ब्रह्मचारिन्-)। बस.।
 q) विप.। बस.। r) तृस.।

अन्—आर्ष्य(र्षी-अ-)विलोप ^a — -पः ऋप्रा ११, ५८.	२०, २५ : १.	अनावृष्टि-भय— -यम् अप ५१, ३, ५; -ये अप ३१, ४, ५; ६९, ४, १.
†अन्-आर्ष्य ^b — यः हिश्रौ १७, ६, ४१; -ये शुप्रा ४, १६०.	अन्-आवाह्य आश्रौ २, १६, १३. ३. १३, १९; शाश्रौ ३, ८, २०: माश्रौ ५, १, ९, ३५.	अ-ना(व्य>)व्या ^c — -व्याः हिश्रौ १०, ३, १४.
अन्-आलब्ध— >°ब्ध-प्राजापत्य ^d — -स्यस्य वाश्रौ २, १, ४, २.	अन्-आविस् (:) ^e आपश्रौ ९, १२, ३. अनाविर-उपर ^f — -रम् आपश्रौ ७, १०, १२; भाश्रौ ७, ८, १३; वैश्रौ १०, ९ : ४; हिश्रौ ४, २, ५७.	अन्-आश-क ^g — -कः बौध ३, १०, १४; गौध १९, १६.
अन्-आलभ्य काश्रौ १६, १, ३२.	अन्-आविस्-स्रग(ग्-अ)नु- लेपण(न) ^h — -णः आपध १, ३२, ५; हिध १, ८, ४७.	†अनाशयम् अश्र १, २२.
अन्-आलम्ब ^d — -म्बम् मागृ २, १, ५.	†अन्-आवृत् ^b — -वृत् या ७, ३; -वृता आश्रौ ६, ८, २; बांश्रौ २९, १ : २.	अन्-आशित— -तम् विध ६७, ३०.
अन्-आलम्भ ^e — -म्भात् मीस् ४, १, २७.	अन्-आवृत् ^f — -तम् कौस् १८, ११; १६; ३९, २२; शोध ७८; -ते विध ५, १४८; गौध १२, १८.	अन्-आशिस ^g — -शिषि पावा ६, २, १४८.
अन्-आलम्भु(क>)का ^f — -कया वैश्रौ २०, ४ : ८; -का आपश्रौ ९, २, १; बौश्रौ २९, १० : २१; ११ : १२; १४; १८; २१; भाश्रौ ९, २, २०; वैश्रौ २०, ३ : १०; १३; ४ : १; ४; हिश्रौ १५, १, ३९; बौपि २, ६, १२ ^g ; अश्राय ४, २.	†अन्-आवृत्, ता ^b — -त्तः निस् ९, १२ : १; २; ११; १०, १ : ८; -त्ताम् अश्र १५, ६; -त्तौ निस् १०, ३ : ५; ६.	†अन्-आशीर्क ^b — -कैण बौश्रौ ३, १७ : १४.
अन्-आलस्य ^e — -स्यः वैध २, ११, ७.	अन्-आवृत्ति— -त्तिः शाश्रौ ३, २०, १७; निस् ९, ७ : २४; वाध १०, १७; -त्तिम् आपध १, २५, १; हिध १, ६, ७५.	अन्-आशीर्वादिन् ^o — -दी वैध २, १०, ९.
अन्-आलिखत्— -खन् कागृ ३५, १†.	अन्-आवृत्य आश्रौ २, १९, ३१.	†अनाशुरश्रवायामी ^p शाश्रौ १२, २१, २.
अन्-आलिङ्गन ^e — -ने पावा ३, १, ४६.	अन्-आवृष्टि ^m — -ष्टिम् वाध ३, १२; अप ५९, १, ३; -ष्टया अप ७० ^o , १७, २; -ष्टयाम् वृदे ६, १३७.	अन्-आश्रय ^e — >°श्रय-संमत ^p — -ताः आपध २, १८, २; हिध २, ५, ५४.
अन्-आलोचन ^h — -ने पा ३, २, ६०; ८, १, २५.	अनावृष्टि-गण— -णम् वैगृ ३, २१; १४; १५.	अन्-आश्रय ^e — -यः पावा २, ४, ३५; -यात् ऋप्रा ११, ६९; मीस् १०, ३, ५८.
अन्-आवर्तयत्— -यन्तः शाश्रौ १६, १, १६; लाश्रौ ९, ९, ५.		अन्-आश्रयत्— -यते काश्रौ १३, ४, २१.
अन्-आवाहन ^e — -ने आश्रौ २, १८, ६; ४, ८, ७.		अन्-आश्रित-त्व— -त्वात् पावा १, २, ६४.
अन्-आवाहयित्वा बौश्रौ २७, १ : ९.		
अन्-आवाहित(त>)ता ^f — -ताः आश्रौ १, ५, २४; -तानाम् वैश्रौ		

a) =आर्षी-विलोप- । तस. उप. षस. तस. । b) वैप. १, परि. च द्र. । c) विप. । बस. । d) =निरवलम्ब- । बस. वा. क्रिवि. । e) तस. । उप. भाप. । f) विप. । तस. । g) आलम्भु इति पाठः ? (तु. मूको.) । h) तस. उप. =दर्शन- । i) वा. क्रिवि. =प्रच्छन्न । तस. उप. अण्य. । j) विप. (प्रच्छन्न-मूल-] युप-) । बस. । k) विप. । तस. उप. बस. >द्रस. । आपध. एत्वम् आर्षम् । l) विप. (क्षेत्र-) । तस. । -तम् इति क्वचित् वा. क्रिवि. । m) नाप. । तस. उप. <आ-वृष्टि- (प्रास. =ईषद्-वृष्टि-) । n) भाप. =उपोषण- । तस. > स्वार्थे कः प्र. । o) तस. । p) पाठः ? शोधार्थं वैप १ परि. ? अनाशुरश्रवायामी टि. द्र. । q) विप. । तस. ।

अन्-आश्रित्य पावा १, ३, १; ३, १,
३१.

†अन्-आश्वस्^१- -श्वन् आपश्रौ ५,
२५, ४; बौश्रौ २, २० : ६; भाश्रौ
४, ४, ५; ५, १६, १३; ९, ९, ७;
वैश्रौ १, १६ : ५; हिश्रौ ६, ५,
२०; आपश्च २, १२, १३^b; १४^c;
पा ३, २, १०९.

अन्-आष्ट^२- -ष्टम् वैताश्रौ १०, १७†.

अन्-आसन^३- -नम् काश्रौ २५, ४, ७.

अन्-आसन-योग-विहित^४- -ते
आपध १, ६, २६.

अन्-आसन्न- -न्नः द्राश्रौ १५, २,
२०; लाश्रौ ५, १०, २०; आपध
१, ६, २१; हिध १, २, ४४;
-न्नान् वैगृ ५, ६ : २०.

अन्-आसिक्य^५- -क्यः शैशि १९;
२१८.

अन्-आसुर- -रम् वैश्रौ १२, ४ : ४.

अन्-आसेक^६- -कम् वाश्रौ १, १,
१, ५२.

अन्-आसेवन^७- -ने पा ८, ३, १०२.

†अनास्कन्धः^८ - निस् ६, ७ : २७.

अन्-आस्पृष्ट- -ष्टः भाश्रौ ५, १, ३.

अन्-आस्माक^९- -कः अश्र १९,
५७†.

अन्-आस्य^{१०}- -स्यम् अप ७२, ६, ४.

अन्-आस्य-विहरण^{११}- -णे पा १,
३, २०.

†अन्-आहत^{१२}- -ताः अप ७०^२, २,
२; ७१, १५, ८; -तानि अप
६७, ६, ५.

अनाहत-शी(र्षन्)र्ष्णी^{१३}- -र्ष्णी

माश्रौ २, ४, १, ३०†.

अन्-आहनन^{१४}- -नम् काश्रौ ८, २,
१७.

†अन्-आहनस्य^{१५}- -स्यम् आपमं
२, २, ११; शांश्र २, १, ३०; पाश्र
२, २, ११; आमिश्र १, १, २ :
४१; काश्र ४१, १३; बौश्र २,
५, १६; भाश्र १, ६ : ११; वाश्र
५, ९; हिश्र १, ४, ६.

अन्-आहरण- -णम् काश्रौ २५,
३, १०.

अन्-आहरत्- -रन्तम् बौश्रौ ६, ७ :
२३.

अन्-आहार^{१६}- -रः वैश्रौ २०, १ : १;
शंघ ४२३.

अन्-आहार्य^{१७}- -र्याः विध ३, ७४.

†अन्-आहित^{१८}- -तम् शाश्रौ २, १६,
३; बौश्रौ ७, १५ : २; १३, ३० :
६; २९, १२ : ८.

†अनाहिता(त-अ)ग्नि^{१९}- -ग्नयः
शाश्रौ १८, २४, २८; बौश्रौ
१८, २५ : ३; २६, ९ : २४;
द्राश्रौ ११, ४, २१; लाश्रौ ४,
४, २०; निस् ५, १३ : १६;
-ग्निः आश्रौ २, ५, १७; ७, १८;
काश्रौ २५, १४, ५; बौश्रौ २,
७ : २६; भाश्रौ ९, १, ८; वाश्रौ
१, २, ३, ३८; आश्र १, २३, २५;
कौश्र ३, ४, ४; ५, १; शांश्र ३,
६, १; ८, १; आमिश्र ३, ४, ४ :
१०; बौपि ३, ४, १५; ५, २; वाश्र
१, ६; वैश्र ४, ६ : १०; ७, २ :
१; हिश्र २, १६, २; वाध ८,

९; वैध १, ६, २; २, ७, ३;
-ग्निना माश्रौ १, १, २, ४२;
-निन्म् आश्रौ ६, १०, ९; द्राश्रौ
७, ४, ६; लाश्रौ ३, ४, ५; बौपि
२, ४, ९; वैश्र ७, १ : १५; हिपि
१२ : ७; अप्राय ३, ८; -ग्नीनाम्
निस् ५, १३ : २२; ६, १२ :
२०; २८; -ग्नेः शाश्रौ ४, ५,
१३; काश्रौ ४, १, ३१; आपश्रौ
१, १०, १७; १४, १३, २; बौश्रौ
२४, ३२ : २७; ३३ : ३; २६,
९ : ४; भाश्रौ १, १०, १२;
वाधूश्रौ ३, ३० : ४; वैश्रौ २०,
१६ : ११; हिश्रौ २, ७, ६४;
निस् ५, १३ : १; आश्र २, २, ५;
कौश्र ५, ८, ११; पाश्र ३, १, १;
आमिश्र ३, ४, १ : १; ७, २ :
१७; ३ : २८; ४ : २५; आपश्र
१९, ६; काश्र ४० : ११; बौपि
१, १७ : ३६; २, ३, २; १३; ८,
१०; वैश्र ५, ५ : १; २८; ७,
७ : २; हिपि १२ : ६; ८; गोश्र
१, ८, २१; ४, ४, ७; द्राश्र २, २,
१; ४; कश्र २, ४, ८; कौश्र ८९,
१६; बौध २, १, ४७; वैध ३,
८, १; गौश्र १८, ३०; मीश्र
६, ८, ५; ९; -ग्नी निस् ५,
१३ : १२; -ग्न्योः बौपि २,
४, ९.

अनाहिताग्नि-ता- -ता विध
३७, २८.

अनाहिताग्न्या(मि-आ)दि^{२०}-
-दीनाम् वैश्र ५, २ : ५.

a) वैप १, परि. च द्र. । b) सप्र. हिध २, ४, ५१ नाश्रन् इति पाभे. । c) सप्र. हिध २, ४, ५० न,
अश्रीयात् इति पाभे. । d) तस. उप. भाप. । e) विप. (आचार्य-). तस. उप. षस. > तृस. । f) विप. (स्वर-
नाद-). तस. उप. नासिका- + तत्रभवीयः यत् प्र. । g) तस. उप. घञन्तं वा. क्विबि. । h) विप. (पायु-). ।
अनास्कन्धः इति शोधो विमृश्यः । i) विप. । बस. । j) तस. उप. = आस्थ-व्यादान- । k) विप. (अनाहत-।
वस्त्र-). तस. उप. < आ-हनस्- [भाप.] + यत् प्र. । l) तस. उप. भाप. (वैश्रौ.), नाप. (भोजन-। शंघ.) ।

अन्-आहुति^a - तः वाश्रौ १, ४, ४, ६; हिश्रौ ६, ५, १५.
 अनाहुति-मात्र- -त्रम् आपश्रौ ९, ६, ८.
 अन्-आहूत^b - तः आपध १, ८, १७; हिध १, २, १०५.
 अन्-आहूय शाश्रौ ९, २५, १.
 अन्-आहूत^c - तम् आपश्रौ ९, ६, १२; वैश्रौ २०, १२ : १; हिश्रौ १५, २, १८.
 अन्-आह्वियमाण^c - णयोः द्राश्रौ ५, १, २४; लाश्रौ २, ५, १९.
 अन्-आह्वान^b - नम् द्राश्रौ १, ३, ३१; ४, २०; २४; लाश्रौ १, ४, १६; १८.
 अ-निकाम- -मात् क्षुस् १, ७ : १२.
 अन्-इकारो (र-उ)कार-प्रकृति^d - तः पावा १, १, ३९.
 अ-नि(णि)कापम्^e आपश्रौ २, ११, ३; हिश्रौ १, ८, २८.
 अ-निकृत^e - तः आमिष्ट २, ७, ११ : १२.
 अ-निकृन्तन^e - नम् पाश्र २, १०, २४.
 अ-निकेत^b - तः वाध ९, ११; आपध २, २१, १०; २१; बौध २, १०, ६३; हिध २, ५, ११९; १३०.
 अ-निकेतन^b - नः वैध ३, ५, १३; ६, ६.
 अ-निकृ^e - केन कौस् १४१, ४०.
 अ-निकृषि^e - प्तम् विध ५, १७१.
 अ-निखात^e - तः लाश्रौ १०, १५, १६.

अ-निगद्, दा^b - दा शाश्रौ ५, १९, २३; ८, १२, १४; -दाः काश्रौ ६, १०, २२; कौश्र १, ६, ५; शाश्र १, १०, ५; -दे आश्रौ २, १८, ५.
 अन्-इग(ग्-अ)न्त¹ - न्तः पा ६, २, ५२; -न्तस्य पावा १, १, ३; -न्ताः अप्रा ३, ३, २१.
 अनिगन्त-प्रकृति-स्वर^k - त्व- -त्वे पावा ६, २, ५२.
 अनिगन्त-वचन¹ - नम् पावा ६, २, ५२.
 अनिगन्ता(न्त-अ)र्थ- -र्थम् पावा ६, १, १२८.
 अ-निगुप्त^e - प्ते हिश्र १, १४, ३.
 अ-निघात^m - तः अप्रा १, १, २१; २२; २५; पावा १, १, ६३; ८, १, ५६.
 अ-निघृष्ट^e - > °व-तेजस्^h - जसम् सु २६, ३.
 अन्-इङ्ग^b - ङ्गेन शौच ४, १२; -ङ्गेषु अप्रा ३, ३, १२.
 अन्-इङ्गन-श्रुति^o - तेः काश्रौ १०, १, ५.
 अन्-इङ्गयत् - यन् ऋप्रा १३, ३०; उस् ८, १९.
 अन्-इङ्गि(त>)ता - ता कौस् १३६, १.
 अन्-इङ्गय^e - ङ्गयः क्षुस् ३, १० : ७; ११ : ३; १२ : ९; -ङ्गये ऋप्रा ५, ४१; दंवि १, ४; -ङ्गयेषु ऋप्रा ९, २५.
 अन्-इङ्गया(ङ्गय-अ)न्त^o - न्तः तंप्रा

४, १०; ८, १३.
 अ-निचय^p - याय गौध १८, ३२.
 अ-निचय^p - यः गौध ३, ११.
 अन्-इच्छत् - च्छन् ऋप्रा २, १०, १०.
 अन्-इच्छन्ती - न्ती ऋप्रा २, १०, १५; १०८; -न्त्यः वाध १९, ३४.
 अन्-इच्छा - च्छया विध ३८, ७.
 अन्-इच्छा(च्छा-अ)र्थ^q - र्थस्य पावा ३, ३, १०७.
 अन्-इच्छु - च्छुभिः विध ६, २८.
 अन्-इज्या - ज्याया शाश्रौ ३, २१, ११; -ज्या वौश्रौ २८, १२ : १९; मीस् १०, ७, ४६; -ज्याः मीस् ४, ४, २; -ज्याम् मीस् ९, ४, ५५.
 अन्-इति - तौ शुप्रा ३, १९; ४, २३; पा ५, ४, ५७.
 अन्-इति-पर¹ - रः तंप्रा ९, २०; -रम् पा १, ४, ६२.
 अनितिष्ठते^q निस् २, ५ : ३३; ३७.
 अन्-इत्थं-विद्^r - विदः वाधूश्रौ ४, ८७ : ९.
 अ-नित्य, त्या^e - त्यः निस् ५, १ : ५; ९, २ : १२²; -त्यम् निस् ९, २ : २२; वाध ८, ७; विध ६७, ३४; ९६, ४१; मीस् १, २, १; ६, ८, ३१; -त्या निस् ९, २ : २१; आपश्र ३, ६³; बौश्र २ : २४⁴; हिश्र १, ४३; ४५; -त्याः निस् ५, १ : ६; ९, २ :

a) नाप. (अमिनतन्-विशेष-). तस. । b) तस. उप. <आ√ङ्गे । c) विप. । तस. । d) तस. > दस. > बस. । e) तस. उप. णमुलन्तम्, यद्वा घञन्तं वा. क्वि. (तु. भाष्यम्) । हिध. अणि^o इति । f) सप्र. अनि(,णि)का^o <> अनिका^o <> अनीकाशम् इति पाभे. । g) तस. उप. <नि√कृत् । h) विप. । बस. । i) सप्र. शाश्रौ ३, १५, ११ न निगदे इति पाभे. । j) विप. । तस. उप. बस. । k) कस. > षस. । l) षस. । m) तस. उप. =अनुदात्त- । n) तस. उप. =अवग्रह- । o) तस. > षस. । p) तस. उप. =संग्रह- । q) पाठः? अनिष्ठिते इति शोधः (तु. मूको.) । r) विप. । तस. उप. उस. । s) =स्थूल ।

१६; -त्याभिः निस् ५, १ : ५; -त्याम् वाध १०, १२; -त्ये कप्र ३, ३, ४; ऋत ४, ७, १; पा ३, १, १२७; ५, ४, ३१; ६, १, १४७; -त्यैः मीस् ६, ७, ५; -त्यौ निस् ९, २ : १९.	निस् २, ८ : ३१. अनिधान ^१ - -ने पा ६, २, १९२. अनिधाय काश्रौ ३, ३, १२; वाश्रौ १, ४, ३, २११; विध २३, ५५. *अनिधावम् ^१ बौश्रौ ६, २ : १८; २१, ८ : १३. अनिधावमान- -नः आपश्रौ १०, ७, ३; आश्रौ १०, ४, १२; वैश्रौ १२, ७ : ८. अनिधावयत्- -यन् हिश्रौ १०, १, ४६. *अन्-इध्म ^१ - -ध्मः कौस् ७५, १४; अश्र १४, २; या १०, १९. अनिन्दत्- -न्दन् वैध २, १४, ११; गौध ९, ५९. *अनिन्दा ^१ - -न्दा आपमं २, ५, ३; काट ४१, २३. अनिन्दित, ता- -तः वौध १, १, ९; -तम् वाध २४, ५; -ताः गौध १३, २ ^६ ; -तान् गौध १२, ३९; -ताम् अप २२, १, ४; कप्र ३, २, १४; -तायाम् आट १, २२, २१; -तेन गौध १८, २१; गौपि २, २, ६ ^१ । अनिन्दा ^१ - -न्दा सु २७, ५; -न्धः अप ४८, ६२; -न्धम् अप ४०, १, १४; ऋप्रा १४, ६९; -न्धान् गोट ४, २, ३१; -न्धे अप २१, ४, ३; -न्धैः अप ६५, २, ३; -न्धौ गौध ११, ३४ ^२ . *अन्-इन्द्र ^१ - -न्द्राः या ३, १०६. अन्-इन्धन ^० - -नः अप ७० ^२ , १९, ६;	७१, ८, २. अन्-इन्धि ^३ - -न्धौ शुप्रा ५, ३३. *अनिपद्यमान ^१ - -नम् आश्रौ ४, ६, ३; या १४, ३. अनिपातित-जानु ^३ - -नोः अप २८, १, ४. अनिपातित-जानुक ^३ - -कः अप २८, १, ४. अनिपुण ^३ - पाग ५, १, १२४. आनैपुण [, ण्य]- पा ७, ३, ३०. अनैपुण [, ण्य]- पा ७, ३, ३०; -णम् आपध १, ८, २६; -ण्यम् हिध १, २, ११४. अनिबद्ध- -द्धः गौध १३, ५; -द्धैः गौध १३, ९. अनिभृत-त्व- -त्वे या १०, ४. *अनिभृष्ट, ष्टा- -ष्टम् बौश्रौ १२, ९, ४; वाश्रौ ३, ३, २, २८; वैश्रौ ९, ३ : ७; हिश्रौ १३, ५, २०; शुभ्र १, ५९८; -ष्टाः वौश्रौ १२, ९ : ८. अनिमन्त्रित-भोजिन् ^० - -जो शंघ ३७७ : १४. १अनिमित्त- -त्तम् आपध २, १०, ३; हिध २, ४, ३; ऋप्रा ११, ५६; पावा १, १, ३९; मीस् १; १, ४; -त्ते आपध १, ३१, १०; हिध १, ८, २९. अनिमित्त-ज ^० - -जे अप ७०, ६, १. अनिमित्त-तस् (:) अप ७१, २, २, विध ७१, ७९. अनिमित्त-त्व- -त्वम् मीस् ६, १, ४९;
--	---	--

a) कस. । b) षस. । c) विप. । बस. । d) तस. उप. कस. । e) विप. ।

तस. उप. उस. । f) विप. (सामन्-). बस. उप. नाप. । g) तस. > कस. । h) तस. उप. =अप्रकाशता- ।

i) =अपरिवर्तयत्- । तस. उप. < नि/धात् [गतौ] + णमुल् प्र. । j) वैप १, परि. च द्र. । k) अन^० इति
पाठः ? यनि. शोधः । l) ँन्दितोनो^० इति पाठः ? ँन्दितेनोपा^० इति शोधः (तु. श्राद्धकल्पवृता

४८ : ७ अनित्येन इति) । m) तस. । n) विप. । तस. उप. बस. । o) तु. पागम. । भाएडा. पाका. पासि.

निपुण- इति । p) विप. । उस. ।

-त्वात् पावा ७,३, ११९; मीस् ११,३,४३;
२अ-निमित्त^१- -त्तः बौध्रौ २४,३१ : ४.
†अ-निमिष्- -मिषा आश्रौ ६,१४, १६; आपश्रौ ९,२,६; भाश्रौ ९, ३,८; माश्रौ ३,२,८; हिश्रौ १५, १,४५; अप्राय ४,३; या १०,२२.
†अ-निमिष^२- -षः पागृ १, १६, २३^०; -षाः पागृ २, १७, १४.
†अ-निमिषत्- -षतः सु २५, १; -षन् आमिष्ट २, १, ३ : १४^०; हिगृ २,३,७^०; जैगृ १,८ : १६^०; या १०, २२^०; -षन्तः या ३, १२^०; -षन्तम् या ११,४२^०.
अ-निमृष्ट- -ष्टम् हिश्रौ ५,३,२३^०.
१अ-निमेष- -षम् या ३,१२^०.
२अ-निमेष^३- -षः माशि १२,६.
अ-नि(प्र>)ज्ञा^४- -ज्ञयोः वैश्रौ १३, ११;१; -म्ने वैश्रौ १३,७१०^०.
अ-नियत^५- -तः कप्र २,६, ८; ऋप्रा ११, ५५; -तम् शंघ १६१; -तानाम् हिश्रौ ३,१,३; -तानि आपश्रौ १३,५,४; -ते हिगृ २, १५, १२.
अनियत-स्व- -स्वात् मीस् ११, ३, ३५.
अनियत-परिमाण^६- -स्व- -स्वात् वैश्रौ १८, १६ : ७५; बौशु ७ : ५; हिशु ३,३७; आपशु ९, १७.

अनियत-वृक्ष^७- -आः हिश्रौ १, २, ६०.
अ-नियता(त-अ)क्षर^८- -०रत्त्व- -त्वात् शुश्रु १,२,
अ-नियतो(त-उ)दक^९- -कम् काश्रौ २४, ७, ९.
अ-नियन्त-कर्तृक^{१०}- -कस्य पावा १, ४, ५२.
अ-नियम- -मः आश्रौ १, ११, १४; ४, १, २६; काश्रौ १, ५, १६; माश्रौ १, ५, १, २; वाश्रौ १, १, १, १८; ८७; हिश्रौ १, १, ५९; १२, ८, २; कागृ ५२, ४; ६६, ३; गोगृ ३, २, २५; पावा २, २, ३१-३४; ४, १, ९३; ६, ४, १३; मीस् ३, ७, २१; ५, १, ३; ६, २, १५; ५, ३०; ७, २३; ८, ३२; ३८; १०, १, ४७; ३, ४६; ७, ६४; ११, १, ३३; ४, ४; १२, ४, ३३; -मम् काश्रौ १, ३, ६; गौघ ६, ६; -मात् लाश्रौ १०, २, ९; -मेन मीस् ११, १, ३१.
अ-नियुक्त, क्ता- -क्तः शंघ ३९७; विध ५, ११८; -क्तम् द्रागृ २, ५, ८; -क्ताः बृदे ४, २८; -क्तानि हिश्रौ १०, ४, ३६; -क्तायाम् वाध १७, ६.
अ-नियोग^{११}- -गम् लाश्रौ ८, १, ९; -नो पावा ६, १, ९३.
अ-निरवसित- -तानाम् पा२, ४, १०.

अ-निरस्य^{१२} आश्रौ ४, ७, ४; ५, १, १९.
†अन्-इरा^{१३}- -राः शुप्रा ४, २७;
 -राम् शाश्रौ १२, १६, १; बौश्रौ १०, २६ : ८; आगृ २, ९, ४.
अ-निराकरण^{१४}- -णम् पागृ ३, १५, २३^०; -†णाय आमिष्ट १, १, २ : ४२; हिगृ १, ४, ६.
अ-निराकरण^{१५}- -ण्णुः पागृ २, ४, ३.
अ-निराकृतिन्^{१६}- -तिनम् आश्रौ ८, १४, १.
अ-निरादिश्य हिश्रौ २०, १, ३१.
अन्-इरिण^{१७}- -णम् बौश्रौ २५, ५, २; वैश्रौ १२, ४ : १; हिश्रौ १०, १, २१; आमिष्ट ३, ४, १ : १३; ५, ५ : २; बौपि १, ४ : १; ३, २, ८; हिपि १ : ३; ५; गौपि १, २, ६; जैगृ २, ५ : २; द्रागृ ४, २, ६.
अन्-इरिणवद्-देश^{१८}- -शो हिपि १७ : १२.
†अ-निरुक्त, क्ता^{१९}- -क्तः आश्रौ ११, ३, ८; ९; काश्रौ २२, ८, ७; माश्रौ १, ७, ५, २४; निस् ६, ७ : ३५; ७, ४ : ४; मागृ २, ४, ९; -क्तम् आश्रौ ११, ३, ८; शाश्रौ १३, १६, ५^३; आपश्रौ २२, ७, ३^०; ९, ९^०; २३, ४, २^३; बौश्रौ १६, ३४ : ५; १८, २८ : ३; वाधूश्रौ ३, ८६ : १३; हिश्रौ १७, ३, २; १८, २, १^०; निस् ६, ११ : २०; ७, ४ : ४५, ९, १२ : २; २७; आगृ १, २२

a) विप. । बस. । b) विप. । बस. उप. भाप. । यद्वा तस. उप. नि✓मिष् + कः प्र. । c) सपा.

अनिमिषः <> **अनिमिषन्** इति पाभे. । d) सप्र. **अनिमृष्टम्** <> **अनिमृष्टम्** <> **अप्रमृष्टम्** इति पाभे. । e) वा. किवि. । f) तस. । g) सप्र. **अनिम्ने** <> **अनिष्कीर्णे** <> ? **अनिष्टब्धे** <> **अनिष्टुब्धे** <> **अनुस्कीर्णे** <> **अनुदुस्ते** इति पाभे. । h) विप. तस. उप. बस. । i) तस. उप. <निर्✓अस [क्षेपणे] । j) वैप १, परि. च द. । k) तस. उप. भाप. । l) विप. (Lअनुज्जिताऽध्ययन-] ब्रह्मचारिन्-) । तस. उप. <निरा-कृत- + इनिः प्र. (पा ५, २, ८८) । m) विप. (स्थरिडल, भूमिभाग-) । बस. उप. = ऊषरभूमि- । n) तस. उप. कस. । o) निरुक्तम् इति पाठः ? यनि. शोघः (तु. मूको. C, सप्र. काश्रौ २२, ५, ७ हिश्रौ १७, ३, २ च) । p) निरुक्तम् इति पाठः ? यनि. शोघः (तु. सप्र. आपश्रौ २३, ४, २) ।

२७; बाअ ४० : २०; ४२ :
 १६; शुभा ४, १९; -क्तया
 आपश्रौ १२, ८, ९; वैश्रौ १५, ९;
 १०; -क्तस्य आश्रौ ९, १०, १;
 -क्ता ऋश्र १, १२, ४; २, १०,
 १८; शुश्र १, २१३; २१५; ५८०;
 ६४०; २, ४२१; ४, ५८; ६३;
 साम १, १६०; -क्ता: निस् ४,
 १३ : १३; -क्ताम् जैश्रौ ३ : ५;
 १६ : ७; जैश्रौका १६५; लाश्रौ
 ७, १२, १४; शुश्र १, १९८;
 ३३७; २, १७५; ३, ११३; -क्ते
 आश्रौ २, १४, ३२; -क्तेन
 आपश्रौ २२, ७, २; ९, ८; माश्रौ
 २, ५, ५, १५; हिश्रौ १७, ३, १;
 -क्तेषु द्राश्रौ १, ४, ९; लाश्रौ १,
 ४, ५; बृदे ७, १६; -क्तौ काश्रौ
 २४, २, १८; २१.
 अनिरुक्त-प्रातःसवन^a - नः काश्रौ
 २२, ५, ७; -नयोः द्राश्रौ १, ४,
 १०; लाश्रौ १, ४, ६.
 अनिरुक्त-सूक्ता (क्त-आ) दि^b - दौ
 बृदे ८, १५.
 अ-निरुद्ध, द्वा^c - द्दम् वैश्र ४, ११ : ७;
 शंघ ११६ : ६५; -द्वाय विध
 ६७, २; -द्वासु बौध २, ३, ४.
 अ-निरुस^d - सस् बौश्रौ २४, ३२ :
 २२; ३३ : ४; -सस्य बौश्रौ २५,
 १७ : ९; -से आपश्रौ ९, ४, ७^e;
 हिश्रौ १५, १, ७७^e; मीस् ६, ५,

१६; -सेन वैश्रौ १०, ८ : ९^f.
 अनिरुसा (प्त-अ) भ्युदित^g - ते
 माश्रौ ९, ६, ३^h.
 अ-निरुण्य वाधूश्रौ ४, २२ : १४; २३ :
 ३.
 अ-निरुहत्^d - हन् आपश्रौ १६, १२,
 ११.
 अ-निरोधक^m - काः वैध १, १०,
 २; ६.
 अ-निर्गत-दशा (श-अ) हⁱ - हाः
 कप्र १, १०, १३.
 अ-निर्घात^j - नाय बौश्रौ १४, ४ :
 ४६.
 अ-निर्णाय बौश्रौ १, १ : ५.
 अ-निर्णिक^d - क्तेन वाध १३, २६;
 -क्तैः विध ५४, ३१.
 अ-निर्देश, शा^k - शायाः आपश्र १,
 १७, २४; हिध १, ५, ५६; -शो
 आश्र १ १६, १८; हिध १, ५,
 १७^l.
 अ-निर्देशा (श-अ) ह, हा^k - हम्
 शंघ ४१८ : -हाः शंघ ३०६;
 -हानाम् वाध १४, ३५; -हानि
 विध ५१, ३९; -हायाः गौध
 १७, २०; -हे वाध ४, ३२.
 अनिर्देशाह-सन्धिनी-क्षीर^m - रम्
 बौध १, ५, १३५.
 अ-निर्दाह - हाय बौश्रौ १३, २८ :
 २१; २९ : २१.
 अ-निर्दिष्ट^d - ष्टः विध ८, ४; २८, ३०;

पावा ६, ३, २४; -ष्टम् शाश्रौ ८,
 १५, १४; कौस् ५१, ५; -ष्टानि
 उनिस् २ : २१; -ष्टे पावा ६, १,
 ८३; -ष्टेषु उनिस् ६ : २.
 अनिर्दिष्ट-कालⁿ - लानाम् हिश्रौ
 २२, ४, २०.
 अनिर्दिष्टा (ष्ट-आ) शिस्^o - शिषः
 कौस् ६०, १२.
 अ-निर्दिष्ट-भाग^p - गः बौश्रौ २६,
 ५ : ७; -गौ बौश्रौ २६, ५ : ८.
 अ-निर्देश - वाः पावा १, ३, १०; २,
 २, ५; ४, ४, ६५; ५, १, ९; ७२;
 २, ४५; ७९; ८, ४, १४; मीस् ३,
 ५, ३५; -शात् आपश्रौ २४, २,
 २८; पावा १, १, ७१; २, ४३;
 मीस् ९, ४, ४४; -शो निस् २, ४ :
 ३४; पावा १, १, ६१; ८, १, १;
 मीस् ५, ४, १९.
 अनिर्देशा (श-अ) र्थ^q - र्थः पावा १,
 ३, ११.
 अ निर्देश्य - श्यानि गौध २१, ७.
 अनिर्देश्य-परीमाण^r - गम् विध १,
 ४०.
 अनिर्देश्य (श्य-अ) र्दि^s - संयुत^p - तम्
 विध १, ४०.
 ? अनिर्देश-प्राशन^t - ने सुध ३४.
 अ-निर्मित - तः अप १, ४०, ५^u;
 -तम् या ५, १.
 अ-निर्मृष्ट, ष्ट^d - ष्टम्^v वैश्रौ ९, २ :
 ७; -ष्टायाम् माश्रौ १, २, ३, १;

a) विप. (क्तु-) । बस. । b) कम्. > षस. c) विप. , व्यप. (प्रगुम्न-पुत्र-) च ।
 तस. । d) विप. । तस. । e) सपा. अनिरुस अभ्युदिते <> अनिरुसाभ्युदिते इति पामे. ।
 f) सप्र. आपश्रौ ७, १०, २ असंस्कृतेन इति पामे. । g) सस. । उप. < अभ्युद् / ह । h) नाप.
 (योगिभेद-विशेष-) । तस. उप. ण्वुलन्तम् । i) विप. (प्रेत-) । तस. > बस. > द्विस. । j) तस. उप. आप. ।
 k) विप. (धेतु-, काल-) । तस. उप. निष्कान्तानि दश [अहानि] यस्य, यस्याः वा इति बस. । l) 'निर्दे' इति पाठः ?
 यनि. शोधः (तु. आपध.) । m) द्रस. > षस. । n) विप. । बस. । o) कस. । p) विप. ।
 तस. उप. बस. । q) विप. । कस. > तस. । r) पाठः ? अन्तर्देश-प्राशन- > ने इति शोधः सुवचः (तु.
 वैध २, १५, ५) । s) पामे. पृ १६० d टि. द्र. ।

६,१,४८; वाश्री १,२,४, ३८.
 अ-निर्मोच्य विध ५, १८१^a.
 अ-निर्युक्ता(क-अ)वसान^b- नः
 मैअ ७.
 १अ-निर्वचन^c- नम् शाश्री १०, १,
 १६; मीस् १०,८,५१.
 २अ-निर्वचन^d- नम् या ७,२४.
 अ-निर्वाह^e- हः या ३, ४.
 अ-निर्वृत्ति^f- त्तः मीस् २,१,९.
 अ-निर्वेदिन्- दी माशि १६, ११^f.
 अ-निर्वेडित^g- ते काठश्री ६३.
 अ-निर्हत्- ते शाश्री ३,१९,७^d.
 अ-निर्हर्त्- रन्तः लाश्री ८, ९,
 १७.
 १अनिल- ✓अन द्र.
 २अन्-इ(ळा>)ळ^h- ळाः कौष्ट १,
 ६,५; शांग १,१०,५.
 १अ-निलयⁱ- यः काष्ट ४,५.
 २अन्-इलय,या^k- यः शाश्री १०,
 १९,२; -या आश्री ८,१३,१३;
 -याः, -याम् शाश्री १०,
 १९,२.
 अ-निवर्त- त्तयि अप ३६, ९,८^l.
 अ-निवर्तन^m- नम् कौस् १४१,४.
 अ-निवर्तमान,ना- नम् सु २५,३;
 ४; -ना सु २५,१.
 अ-निवर्तयत्- यन्तः वाश्री ३, ४,
 १, ३१; हिश्री १४,१,४६.
 अनिवर्तयन्ती- न्ती माश्री २, २,

२, १५.
 अ-निवर्त्य काथ २८१ : १.
 अ-निवसत्- सन्तः पा ६, २,
 ८४.
 अ-निवारणⁿ- णम् शंध १२.
 अ-निवार्य- र्याः शंध ३०७.
 १अ-निविशामा(न>) ना- नाम्
 या २,१६.
 अ-निवृत्त- त्तः आमिष्ट २, ७, ९ :
 ३२; -त्तम् गौध ३, १५; -त्ते
 आमिष्ट ३,४,५ : १^o?
 अनिवृत्त-त्व- त्वात् पावा १,३,१२.
 अ-निवृत्त-धर्म-कर्मन्^p- र्मणः
 वाध २१,१६.
 अ-निवृत्त-विद्य^q- यान् वैश्री १२,
 १ : ३.
 अ-निवृत्ति^r- त्तः काश्री २२, २,
 १४; ३, ५०; गौध १०, १५;
 पावा ४, ३, १३२; मीस् १०,
 १, १०; -त्तौ आपध १, ४,
 २६; हिध १, १, १४५.
 अनिवृत्त्य(त्ति-अ)र्थ- र्थम् पावा
 ३,१,९४; २,१०८; ३,१२; ४,
 ३,१४१.
 अ-निवेदन^s- नम् शंध २५५.
 अ-निवेदित- >^tत-प्रवेश^u- शे
 शंध ३३०.
 अनिवेदित-विज्ञात^v- त्तस्य विध
 ३,६२.

अ-निवेश- शात् मीस् ८,३,२१.
 १अ-निवेश(न>) ना^w- नानाम्
 या २,१६^o.
 अ-निश^x- शम् सु १,३; आमिष्ट २,
 ३, ३ : २८; विध १, ३६; पाग
 १,१,३७.
 अ-निशा^y- शायाम् अप ७०^z
 २०, ३.
 १अ-निशित,ता^{aa}- त्तः काश्री २, ६,
 ३९; कौस् ६,१०; शुअ १, ८९;
 -ता काश्री २, ६, ४१; शुअ १,
 ९०^z; -ताः^{ab} आपश्री २, ४, २;
 वैश्री ५, २ : १२; हिश्री १,
 ७,४.
 अ-निश्चय^{ac}- यः उनिस् ६ : ३३
 अ-निषिद्ध- द्धानि सुधप ८३ : २.
 अन्-इषु^{ad}- पुणा लाश्री ८,६,८.
 अ-निषेध^{ae}- धः पावा १, ४, ५२; २,
 ३, ६९.
 अ-निष्कायम्^{af} माश्री १,२,६,२४.
 अ-निष्कासि(त>) ता- त्ताम्
 आपश्री ८, ११, १५; १०, २१,
 १८^z; भाश्री ८, १२, २; -तायाम्
 आपश्री १३, २२, २.
 अ-निष्कासिन्^{ag}- सिना आपश्री २,
 ७, २; भाश्री २, ७, १; हिश्री
 १,७,४२.
 अ-निष्क(र्ण>)र्णा- र्णै वीश्री ९,
 ५ : ३^h.

a) आनि^o इति पाठः? यनि. शोधः । b) विप. । तस. उप. बस. । c) तस. । d) बस. वा. क्विवि. ।
 e) तस. उप. = विवाह- । f) पाठः? अनिवेदः इति शोधः (तु. सप्र. रामायणम् ५, १२, १०) । g) विप.
 (शूल-) । तस. उप. स्वरूपम्? h) सप्र. न...अनिर्हते<>निर्हते इति पाभे. । i) विप. (पाकयज्ञ-) । बस. ।
 j) विप. । बस. उप. = गृह- । k) विप., नाप. (प्रजापति-तनू- [= वायु-]) च । तस. उप. < ✓इहू [गतिभञ्जे
 (वैतु. सा [ऐत्रा ५, २५ गतौ])] । l) तस. उप. भाप. । m) पाठः? निवृत्ते इति शोधः (तु. सप्र. बौपि
 ३, १०, १) । n) विप. (ब्राह्मण-) । तस. उप. बस.> द्रस. । o) कस. । p) वैप १, परि. च द्र. ।
 q) = निरन्तर- । बस. वा. क्विवि. उप. < निशा- । r) त्ताः इति पाठः? यनि. शोधः (तु. काश्री.) ।
 s) पाभे. वैप १ परि. अनिशिता मा १, २९ टि. द्र. । t) विप. । बस. । u) पाभे. पृ १५८ f टि. द्र. ।
 v) विप. (सुव-) । तस. उप. < निष्कास- [=शेष-] । w) पाभे. पृ १६० g द्र. ।

१अन्-इष्ट, घा^० - ष्टम् वाधुश्रौ ४,
१९ : ३६; वैश्रौ २१, १ : ४;
†कौसू ९४, १४; अप ७२, ५,
४; शंघ ८६; पावा ३, ३, १६३;
४, १, ७९; -ष्टा अप ५९, १, ९.
अनिष्ट-प्राण^० - णे शांष्ट ४, ७, २७.
अनिष्ट-त्व- -त्वात् पावा ३, ३, ५८;
१३६; ४, २, १००.
अनिष्ट-प्रसंग^० - ङः पावा १, १, ५२;
४, २३; २, २, २९; ४, ७९; ३, १,
३१; ४, ६७; ५, २, ६५; ६, १,
४९; ४, ८२; ८, ३, १२; ८२.
अनिष्ट-शब्द-निवृत्त्य (ति-अ)
र्थ^० - र्थः पावा १, ४, ६२; ८०.
अनिष्टा(ष्ट-अ)दर्शन^० - नात् पावा
१, ४, ८०; २, २, ३०.
२अन्-इष्ट, घा^० - ष्टः बौश्रौ १०, ५५ :
१७; १८; -ष्टम् बौश्रौ १७,
१५ : १; ३; १८, ५१ : ११३;
१२; २८, ९ : ५; -†ष्टाः आश्रौ
२, ५, १४; काश्रौ २५, १०, २५;
अप २२, ९, ४; -ष्टायाम् बौपि
२, १, २; -ष्टे शांश्रौ ४, ९, ७;
काश्रौ २५, ५, १२; आपश्रौ ६,
३१, ७; भाश्रौ ६, १८, १४; वैश्रौ
८, २ : १५; -†ष्टेभ्यः आपश्रौ
३, ११, २; बौश्रौ १, २१ : १२;
२७, २ : ४; भाश्रौ ३, १०, २;

वाश्रौ १, ३, ७, २०; हिश्रौ २, ६,
१; कौगृ १, ५, २९; आमिष्ट १, ५,
२ : १५; कौसू ५, १३.
अनिष्ट-स्विष्ट-कृत^० - -तम् बौश्रौ
११, ७ : ३; वाधुश्रौ ३, ६१ :
१; -ते बौश्रौ १२, १० : ६.
३अन्-इष्ट^१ - > भानिष्टि- -ष्टिः
बौश्रौप्र ४४ : ३.
अन्-इष्ट-प्रथम-यज्ञ^० - -ज्ञानाम्
निस् ५, १३ : २६; ६, १२ :
१६; २०.
अन्-इष्ट-प्रथम-सोम^० - -मस्य
बौश्रौ २२, ३ : १.
अन्-इष्ट-सोम^० - -मः वैताश्रौ ३०,
३.
?अ-निष्ट(व्य >) ष्था^१ - -ष्वे^१ हिश्रौ
२४, २, ५.
अन्-इष्टिन्^क - -ष्टिनः काश्रौ १५, १,
१.
अ-निष्टु(व्य >) ष्था^१ - -ष्वयोः
आपश्रौ १५, ९, २; भाश्रौ ११, ५,
१२; ९, २; हिश्रौ २४, ४, १;
-ष्वे^१ आपश्रौ १५, ५, ९; भाश्रौ
११, ५, ११.
अ-निष्टृत^म - -तः तैप्रा ११, ४†.
†अ-निष्टय- -ष्टयः आपश्रौ ५, १२,
२; १३, ८; १५, ६; ६, २, १; हिश्रौ
३, ४, १; ४, २२; ३८.

†अन्-इष्ट्वा^० आश्रौ.
अ-निष्ठा^० - -ष्ठा पा ६, २, ४६;
-ष्ठायाम् पा ८, ३, ७३.
अ-निष्पत्ति^० - -त्तेः मीसू ७, २, २०.
अ-निष्पन्न^० - -न्नम् काश्रौ १३, ३,
१६.
अ-निष्पन्न^० - -न्ने पावा ३, ३, १३३.
अनिष्पन्न-त्व- -त्वात् पावा ३, ३,
१३३.
अ-निसूदन^क - -नम् शंघ १०३.
?अनिस्मः^० या ७, २०.
अन्-इह^१ - -हः आपध २, २१, १०.
अ-निहत्य^० सु २७, ४.
अ-निहत्य- -त्यस्य आपश्रौ २२, ६,
१६६; हिश्रौ १७, २, ६१.
अ-निहित^१ - -त्ते काश्रौ ११, १, १५;
शुप्रा ५, २९^५; -तेषु काश्रौ ९,
१३, ३६.
?अनिहृत- -तम् हिय १, १६, १७^५†.
अनीक^म - पाउ ४, १७; पाग २, ४, ३१;
-†कम् आश्रौ २, २०, ४; ३, ८,
१; ९, ८, ३; शांश्रौ १३, २९, १३;
काश्रौ १०, ८, २४; आपश्रौ ८,
८, ३; १९, २३, ४; २४, १३, ३;
काठश्रौ ३६; बौश्रौ ८, ५ : ९;
१९ : १७; १०, ३३ : २२; १३,
३० : ८; भाश्रौ १, ७, ४, ३८;
वाधुश्रौ ४, ८८ : ५; वैश्रौ १६,

a) तस. उप. < √ इष् [इच्छायाम्] । b) षस. । c) कस. > षस. > बस. । d) तस. उप.
< √ यज् । e) विप. । बस. समासान्तः अच् प्र. उसं. (पा ५, ४, ७५) । f) व्यप. (प्रवर-विशेष-) । व्यु. ? ।
g) विप. (अनाहितामि-) । तस. उप. बस. । तत्र पूष. सुष्पुपीयः समासः (तु. भूत-पूर्व-) । h) विप. । बस. ।
i) विप. (सुच्-) । तस. उप. < नि √ ष्टम् । j) पाभे. पृ १६० g द्र. । k) विप. । तस. । l) उप. < नि
√ ष्टुम् इति । m) वैप १, परि. च द्र. । n) तस. । o) तस. । उप. प्रत्ययविशेष-संज्ञा- । p) तस. उप. बस. ।
वा. किवि. । पत्र- = शर-पुह्व- । q) पाठः अर्थश्च ? । इति स्मोः इति ल. ? दु. रू. पाठाऽभावः । r) विप. । बस.
उप. = सांसारिक-कर्मन्- । s) निह^० इति पाठः ? यनि. शोधः (तु. हिश्रौ. c. च) । जैत्रा १४० अनिर्घात्यस्य इति
पाभे. । t) विप. । तस. उप. < नि √ धा । u) = अव्यवहित- । v) पाठः ? (अति √ ह्ये > भावे)
अति-हृत- > -तम् (अतिक्रम्य शब्दकरणम्) इति शोधः (वैतु. संटि. अनुहृतम् इति, Böht [ZDMG ५२,
८४] अभिहृतम् इति च शोधः इति ?) ।

२५ : ४; हिश्रौ ७, ७, ३५^३ \$; ९,
५, २६; १०, ३, ४१^३ \$; वैताश्रौ
६, ८ \$; ९, २^३ \$; १४, १; ३३, ६;
३९, १६ \$; आमिगृ ३, ५, ६; २७;
बौगृ ४, ३, ५; बौपि १, ५ : १४;
जैगृ १, ४ : १०; शुअ १, ५१२;
या १२, १६; -कानाम् अप
१८^३, ७, १; -के शाश्रौ ८, २२,
११; आपश्रौ १७, १८, ११; बौश्रौ
२२, ९ : ५; बौशु ९ : ८; १४ :
५; १७ : १२; २० : ६; -केन
आश्रौ २, १८, ३१; ऋशाश्रौ ६,
१२, ३; १३, १; आपश्रौ ११
१५, २१; बौश्रौ ६, २९ : ६१;
१०, ५१ : १०; २५, १९ : ४१;
माश्रौ २, २, ४, ८१; ऋश्रौ
१४, १२ : ५; ८; हिश्रौ १२, ४,
१०१; जैश्रौ १३ : ४, ५; वैताश्रौ
१८, ८; -कैः शाश्रौ ३, १५,
४१; जैश्रौ १३ : २५.

अनीकवत्^० -वतः वैश्रौ ९, १ :
५; वैताश्रौ ९, २; -वते शाश्रौ
३, १५, ३; १४, ८, ३; काश्रौ
५, ६, २; १५, ३, ३; आपश्रौ
८, ९, २; १७, १३, ६; ऋ२०,
१४, १०; १५, ५; बौश्रौ ५,
१० : ४; १५, २३ : ८; २६ : ९;
२६, ११ : ६; भाश्रौ ८, ११, २;
माश्रौ १, ७, ५, २; वाश्रौ १, ७,
३, ३; वाधुश्रौ ३, ८६ : ३१;
वैश्रौ ९, १ : २; १९, ६ : ७३;
हिश्रौ ५, ३, २; १२, ४, १०; १४,

३, १७; -ऋन्तम् आश्रौ २,
१८, ३; बौश्रौ १०, ५१ : १०;
-वान् आश्रौ २, १८, ३; वैश्रौ
९, १ : ४.

अनीकवती- ती काश्रौसं
२९ : ५.

?अनीकवत्^१ -तस्य माश्रौ १,
७, ५, ७^०; ५, १, ४, १.

?अनीकवत्-सांतपन-क्रीडि-
न^१ - नेषु माश्रौ ५, १, १, १६^१.

आनीकव^२ -तः शाश्रौ १४,
१०, १६; आश्रौ २२, ८, १५;
बौश्रौ १५, १० : ११; १७, ५७ :

६^३; ७; ६० : ६, ७; २१ : ९;
-तम् बौश्रौ १५, १० : ९; १० :

१० : २२ ९ : २३. -स्य आश्रौ
१७ ५७ : ८; ६० : ८; २१,
३ : १०, २२, ९ : २० हिश्रौ

५, ३, १८; - त् माश्रौ ८, २२,
१२ -ताय वाश्रौ १, ७, ३, २;

-वते वाश्रौ २१, ६ : १७.

आनीकवत्-प्रभृति- तीनि
बौश्रौ १७, ६२ : ५.

अनीक-संघृष्ट^३ -ष्टान् बौश्रौ २०,
११ : १८.

अनीक-संहित > ता^४ -ते आपशु
१६, १४; हिशु ५, ३७.

अनीकाश^५ -शम् वाश्रौ १, ३, ३,
२८.

अन्-ईक्षण^६ -णः आमिगृ २, ७, ६ :
३३.

अन्-ईक्षमाण- णाः वैगृ ५, ६ : २.

अनीच^७ -चः अप्रा ३, ३, २१;
-चानाम् उस् ८, २८.

अन्-ईजान^८ -नः काश्रौ ४, ६, १११;
८, ९, ८; -नम् आपश्रौ ७, २८,
८१; ८, २१, ४; भाश्रौ ७, २३,
९१; माश्रौ १, ८, ६, २५१;
वाधुश्रौ ४, १२ : १; हिश्रौ ५,
६, ६; -नस्य काश्रौ ५, ११, १७;
बौश्रौ १७, ४७ : ४१; ५० : १२;
१८, २५ : २; २६, २९ : ७;
-नाः काश्रौ २५, ९, ७१.

अनी(त>)ता- तासु काश्रौ २५,
११, ८; १२, २७^१.

अन्-ईप्सत् -प्सतः आपध १, १९,
१०; हिध १, ५, ११२.

अन्-ईप्सित^९ -तम् पा १, ४, ५०.

अन्-ईश्वर^{१०} -पाग ५, १, १२४; -रः
गोगृ १, ६, २.

आनैश्वर्य- पाग ५, १, १२४; पा
७, ३, ३०.

अनैश्वर्य- पा ७, ३, ३०; -र्यम्
अप ३५, २, ११.

?अन्-ईह- -हः हिध २, ५, ११९^{११}.

अनु, > नू ऋशाश्रौ १, ३, २३; २, ६,
१५^{१२}; १९, १८^०; २२; ३, १०,
१६; ४, ७, ४^३; ७, २, ३; १२, १०,
४ \$; ऋशाश्रौ ४, ४, २^{१३}; ५^{१४}; ९,
५; ५, १०, १०; ६, १३, ३; ९,
६, १; १५, १; \$ १४, २, १७;
१८; १९; २१; १०, ४; १३, ४;
५; ९; १५, ५, १^{१५}; ७, ८; १६,
७, ४^{१६}; १७, १४, ९; १८, ७,

a) नाप. (अनीकवत्- [मन्त्र-भाग-]) । म-र्थोऽस्य प्र. लुक उस्. (पा ५, २, ६०) । b) पाभे.

वैप १, ६८५ टि. द्र. । c) वैप १, परि. च द्र. । d) पाठः ? अनी० इति शोधः स्यात् (तु. सप्र. शाश्रौ. प्रभृ.;
वैतु. संस्कृतः टि. [तु. टि. आनीकवत्-]) । e) अनीकवत्स्य इति पाठः ? यानि शोधः । f) द्रस. । g) =आग्नेय- ।
साऽऽख्यदेवतीयः अण् प्र. (पा ४, २, २४) । h) विप. । तु. । i) पाभे. पृ १५८ f टि. द्र. । j) विप. । बस. ।
k) तस. । l) अनी० इति कांसं. पाठः ? यन्नि. शोधः । m) पाठः ? अनि(न्-इ)ह- > -हः इत्येवं शोधः
(तु. भाष्यम्, आपध २, २१, १० च) । n) तु. वैप १, १८७ c । o) स्वाभ. ।

१५; काश्रौ २, ८, १४; ३,
५, १९; ४, १, १२; ५, २३;
५, ३, २८; ११, २३; ९, ७,
६; ९, १३; ११, १; १३, १९;
१०, ३, ४; ९, २८; ३०; १२,
३, ५; १५, ४, ४; ८, १८; १०,
१४; १६, २, १४; १८, ६,
१९; २०, ४, २९; २२, ४, ८;
८, १; १०, ११; १५; अत्रापश्रौ
१, ९, १; १३, १५; २१, ७;
२, ६, ५; १०, ५; ३, १५, ५;
१७, १; ४, १२, ४; १०; ५,
२, ४; १४, ५; ६, ५, ५; २२,
१६; ७, १३, २; ८, १५, ८; १६,
६; २१, १०; १२, १, ११; ७, ६;
९, १; १०, १७; १०, ३, २; ११,
११; १२, ७, ३; ४; १०, ४;
१२, ५, १५; १४, ७; २८, १; ३;
१३, ७, १३; १२, ९; १५, ८; १६,
२२, १; १४, ३, ५; २९, १६;
१५, ९, २; १०, ७; ११, १६;
१६, २, ८; १२, १; १७, १५,
१; १९, १३, १८; २२; २०,
१३, ८; २१, ४, १; २०, ६;
२२, ५; २२, ११, ११; २३, १४,
१५; २४, १३, ३; काठश्रौ
६; १०; काश्रौसं २९: १६;
३; ४; बौश्रौ ११, ३: ३४;
७: १३; १२: ३९; १४: १५;
२, ८: २७; १०: १९; २२;
२६; १३: ९; १०; १५: ५;
१७: २५; २८; २९; ३०; १३,

१०: २२; २३; ११: १४; १९: ५;
२१: २; २८: ४; ४; ५: १०;
११; १६: २४; ४; ५; ९:
३६; ५, १४: १; ७; १२; १८;
१५: ४-६; ११; १८: १९; ६,
१५: १८; २७: १५; २२;
३०: १०; ७, ६: ५; ८, १७:
९; १६: २१; १०: ४; १६:
६; ७; १०, १२: १४; १५;
२२: १३; ५२: ६; ११, ६:
२६; १२, ७; ३६; १४, ३: ५;
६: १५; ११: २; १७: २६; २४:
३१; ३७; ३८; १५, १: १९; ५:
१६; १८; २३; २५; ६: ८; १६,
१२: १०; १७, ५: २; ५०:
१५; १८, १५: १९; १७: २०;
४६: २; १२०, ७: १७; १०:
२४; १२, ३२: ११-१३;
१७; १८; १२, ११: १३;
२५; १४: १७; १५: १५; २८,
११: १०; ११; १२, ७;
१४, ६; २३, ७; २, ६, ८; १०, ६;
४, १८; २, ०, १; ५, ८, १; १९,
१२; ७; १०, २; ८, १८, १;
११; १८; १९, २; १३; ११,
११; ९, १६; १४, ९; १०,
१३, ३; ११, ९, ३; १०, ३;
११; १२, २, १९; २, २,
३०; ५, १४: ६, २५; ४, २,
१६; ५, ४, ७; ७, ३, ४१;
६, ३२; २, २, ११; ४, २६; ३,
६, ५; ५, ५, ११; ३, ३, ६; ४,

१०; ६, १, १, १४; २, ६,
२६; वाधुश्रौ ३, २७: १०;
४३: ५; ६१: ७; ७९: ११;
९८: २; ४, १०: १; २; १५:
१९; २६; ३; २६: १६; २८: ५;
७; ३३: २३; २४; ४०: २;
५; १५: ५; ६; ६७: ३; ४;
१०२: ४; ११, २, ३, १७;
२९; ४, ६६; ३, २, २८; ३,
२९; ५, १४; ६, २; ४, ३, ११;
७, ४, ३९; २, १, ६, ६; ८,
१९; ५, १४; ३, १, १, २२; २,
१, २७; २, २८; ३, १, ६०;
२, २; ४; ४२; ४, १, ८; ५६;
३, ९; ५, २६; ११, १२:
१; १३; २, ७: १; ४, ८: ९;
५, ३: १५; ७, ६: १०; ८, ५:
१६; ९, ७: १३; ८: ६; १०;
१६; ९; १०, १२; ५, १३, १२:
१; १५, २४: ६; ८; १६,
८: ८; १४: ११; १८:
१४; २१: १०; १७, ८: २;
१८, १: २४; १९, ६: ८६;
१४५; २०, १३: ४; द्विश्रौ
१, ३, ५४; ५, ८७; ७, ३३;
८, २२; २, २, २७; ६, ५५; ३, ४,
२८; १४, ३, १३; ४३; ५, ४,
६१; ६५; ६६; ६, ४; १६, ३,
१२, ४, ३२; ७, २, २७; ६३; ६४;
८, ३, २०; ५०; ४, २७; ८,
३३; ९, ५, ४३; ७, ३२; १०,
२, १४; ७, १४; ११, १, १९;

a) तु. वैप १, १८७ ८।

b) लक्षणे वाऽऽनन्तये वा कप्र. ।

c) तृतीयाथे कप्र. (तु. वैप १,

१९५ १) । d) स्वात्र. । e) तृतीयाथे कप्र. (तु. भा. L तैत्रा १, ५, ५, ६) । f) षट्कारौ इति द्वि. युक्तः

कप्र., सप्र. बौश्रौ. प्रभृ. अनुप्रकम्पयन्ति इति ।

g) माम् इत्यन्वितः लक्षणे कप्र. ।

h) बाहुम् इत्यन्वितः

लक्षणे कप्र. ।

i) तु. वैप १, १८७ b ।

j) देवान्, असुरान् इत्यन्वितः लक्षणे कप्र. ।

k) पाठः ? भा इत्यर्थकः कप्र. सूहः ।

l) अनु सञ्चतुना इति पाठः ? *अनु-स्व- > -स्वम् (स्वाधिकारपूर्वकम्),

ञ्चतुना इति द्वि-पदः शोचः ।

४, १३; १२, १, ११; ५, ७;
 ६, ६१; १४, १, २६१; ३,
 १२; ऋ१५, १, ११; २, २३; ३,
 २७; ७, १३^१; १६, ६, ४३;
 ४४; १७, ३, २३; २३, २, ४८;
 ५०; २४, ४, १^१; ७१; जैश्री
 ९: २६^२; २७^२; १३: १०;
 २४; १४: ४; १५: १२; १८:
 ३; १९: १६; २०: १४; १५;
 द्वाश्री २, ४, १९; ३, १, १; ५,
 १, ३; ५; ७, १, २१; ९, १, ५१;
 १०, ४, ९^१; ११, ३, २३; १३,
 २, ७१; लाश्री १, ८, १४; ९,
 १; २, ५, २; ३; ५; ऋ३, १,
 २१; ५, ५; १२, ८^१; ४, ३, २२;
 ५, २, १०^१; ५, ३^०; ६, ४, १६;
 ८, ६, १; ९, २, २९; वैताश्री १८,
 ३; ४; २८-२९, ४; निम् २०, ७:
 ३; ५; ९; १०: ६; ३, १: २६;
 ३: ९; १२: ४^०; ४, ८: २१;
 ७, ३: २४; ८, ९: ४१; १०, १३: ९;
 आपमं १, १, ६१; २, ६१; ३, ६;
 ६, ९१; १५, ६; १६, २; २, २,
 १०; ३, ३१^१; ५, ११; १०, ८;
 ११, ३०; १७, ७; २०, ८^१;
 ३१; ३२^२; २१, १७; सु ६, ११;
 १५, ३^०; १६, ३; आश्री १,
 ११, ४; २१, ७१; ४, ६, १०१;
 ऋकौश्री २, २, १४; ५, १, १४;
 ऋशाश्री १, ३, १५^०; २, ४, १^०; ४,
 ७, १४; पाश्री १, ४, १५; ८, ८१;
 २, २, १६१; ३, ३, ५^१; ४, ४^१;
 १४, ६^१; आमिश्री १, १, ३: ३०;
 ३८; २, ३: ९१; २, ३, ५:

२८; ४, १: १२; २: ५१;
 ५, १०: २८१; ६, ८: ३२;
 ७, ४: १२; ३, ५, २: ११; ३,
 ८, १: २०; २: ५४१; ८, ३:
 ४; ऋकाश्री ४०, १३; ४१, ९;
 ११; काश्री ३९: १३१; ऋश्री
 १, ५, २; ६, २६; २, ५, १४;
 ४, १, ११; बौश्री १, २: ११;
 १४: १९; १५: ५९१; २, ९,
 ११; ऋमाश्री १, १८: ५; २, ३:
 ५; ४: ६; १२: १३^२; १७; १८;
 १३: ५^२; २८: ११^२; ३, २: ९;
 ऋमाश्री १, १०, १३; २२, १०;
 २, १८, २; वाश्री १४, १३; वैश्री
 ३, १६: १२; ४, ६: ४१; ५,
 ३: २^०; ६, १६: ८१; हिश्री १,
 २, १३; १४; ६, ३^२; २७,
 २; २८, १; ऋहिश्री ३: ६;
 १५: २४; गोश्री १, २, २; ३;
 ९, ३; ऋ४, २, २५; ३३^२;
 ३, ६^२; ८^२; १५^२; २४^२;
 गोश्री २, ४, ७^०; जैश्री १, १२:
 ३२; २३: ६^०; २, १: ८;
 २: ६; ७; ९: ३०; द्वाश्री १,
 ५, २७; ५, १६^२; कप्र १,
 १, १६; ९, १०; ऋकौश्री २६,
 १४; ३६, १९; ६९, २३;
 १०३, २^१; १०६, ७; ऋअश्री
 ५, २^१; ३; अप १, २२, ५;
 १८^१, १, ५१; आपश्री २, २४,
 ११; बौश्री १, ७, १९; हिश्री २, ५,
 १६६१; काश्री ६, ६१; बृश्री २,
 १३९१; शुश्री २, २११; चाश्री
 १६: २१; अश्री १, २२१; अप

२: १०१; ऋश्री १, ३; २, २८^२;
 ६, १२; २२; १०, २०; ११, ७;
 २८; ४२^१; १२, १^१; १३; २२-२५;
 ऋश्री १२, ४४; ४५; ११, ६३;
 १२, २०^०; १५, १७^०; शुश्री ६,
 ८१; २४; ऋश्री ११, ५; १२,
 ४; १३, १२; अपश्री ३, १, ७१;
 ऋभाश्री २९; ९०; पाश्री १८;
 पाश्री १, ४, ५७; ५८; उनिम्
 ४: २०.

अनु-नु: पा १, ४, ८४; पावा
 २, १, १५; -नो: शुश्री ३, ७१;
 पा १, ३, ५८; ६, २, १८९; ३,
 ९७; -नौ पा ३, २, १००.

अनु-√अन् द्र.

अनु-क- पा ५, २, ७४.

अनु√कण् (अणुभावे), अनुकणति या
 ६, ३०.

अनु√कथ्, अनुकथयेत् आपश्री १,
 ७, २२; हिश्री १, २, ७९.

अनु-कनीयस्- पा ६, २, १८९.

अनु-कम्^१ पाश्री १, ४, ५७.

अनु√कम्, अनुकामयेत् या १२,
 २९.

१ अनु-का(म>)मा- मा वाध १७,
 ७७.

१ अनु-कामि(न >)नी^१- नी
 आपश्री ११, १६, १०^१; बौश्री ६,
 ३: १२; वैश्री १४, १४: ७;
 हिश्री ७, ८: ११.

अनु√कम्प>अनु-कम्पा- -म्पा-
 याम् या ५, ३, ७६.

अनुकम्पा(म्पा-अ)र्थक- -र्थे बृश्री
 ८, ८५.

a) पाठः? नु इति शोधः (तु. ऋ ४, ५४, १) । b) तु. वैप १, १७७ b । c) स्वाश्री. ।

d) तु. वैप १, १७८ n ।

e) वैतु. वृत्तिकारः गतिरिति । f) तु. वैप. १, १७७ k । g) ?अनुविष्टमम्

इति द्वि. युक्तः सप्तम्यर्थे कप्र. (तु. स्क. BN.; वैतु. ल. अनुत्तमो भागः इति, शिवसं. अनुत्तमो भागः इति चोत्तरेण
 समस्तमितेव?) । h) निपातयोः समाहारः । i) वैप १, परि. च द्र. । j) पाश्री. वैप १ परि. द्र. ।

k) षस. ।

अनु-कम्प्य वैश्री २१, १५ : ३.
 अनु-कम्प्य- -म्प्याय आपृ १३,
 १३.
 १ अनु-कल्प^a- -ल्पम् गोष्ठ १, ५, २१.
 २ अनु-कल्प^b- पाग ४, २, ६०; -ल्पः
 शंघ ६४.
 आनुकल्पिक^c- पा ४, २, ६०;
 -कम् कप्र २, ८, २५.
 अनुकल्प-शस् (>) कप्र ३, १०, ६.
 ३ अनु-कल्प-, °ल्पन- अनु✓कल्प^d
 द.
 अनु✓काङ्क्ष> अनु-काङ्क्षत्-
 -ङ्क्षन् आपध १, ८, २४; हिध
 २, ११२.
 २ अनु-काम^e- > °मीन- पा ५, २,
 १११.
 अनु✓काश> अ (नु>) नू-काश^f-
 -शान्^g आपधौ २०, १४, १३^h;
 हिश्रौ १४, ३, १८ⁱ; -शेन शुप्रा
 ३, १२९.
 अनु-किशो(र>)रा^j- -रा माश्रौ ५,
 २, ११, ३४.
 अनु✓कीर्ति (< कीर्ति-), अनुकीर्तयत्
 वृदे ४, १९.
 अनु-कीर्तन- -नम् मीस् ६, ७, २६.
 अनु-कीर्तयत्- -यन् वृदे २, २१;
 -यन्तः शांठ १, ६, ४.
 अनु-कीर्तित- -ताः वृदे ४, २८.
 अनु✓कृज्, अनुकृजेत् माशि १२, ७.
 १ अनु-कूल, ला^k- पाग ५, १, १२४;
 -लानि आज्यो ७, १८; -लेषु

अप ६५, १, २.
 आनुकूलिक- पा ४, ४, २८.
 आनुकूल्य- पा ५, १, १२४.
 अनु✓कृ^l, अनुकरोति आमिष्ट १, ३,
 ५ : १; १ अनुकरोमि बौश्रौ १७,
 ४१ : २७; आमिष्ट १, ३, ५ :
 २; अनुकुर्यात् विध २८, २५.
 अनु-करण- -णम् पा १, ४, ६२;
 पाप्रवा २, ३; -णस्य पावा १,
 ४, ६२; ८०.
 अनु-कार^m- -रेण विध ४३, ३३.
 अनु-कृतिⁿ- -तयः वीष्ट ३, १२,
 १५^o; -तिम् या ७, २३.
 अनु-चिकीर्षत्- -र्षन् आपध २, ५,
 ८; हिध २, १, ८९.
 अनु✓कृष्, अनुकर्षेत् गौध ९, १.
 अनु-कर्ष^p- -र्षः पावा ५, १, ८४.
 अनु-कर्षण- > °णा (ण-आ) नर्थ-
 क्य^q- -क्यम् पावा ८, २, ३८.
 अनु✓कल्प, > कल्प, अनुकल्पते
 या १४, १०.
 अनुकल्पयते वैश्रौ १२, ६ : १६;
 अनुकल्पयति निस् ८, १० :
 १०; अनुकल्पयन्ति द्राश्रौ ८,
 १, १८; लाश्रौ ४, ५, १८;
 निस् ९, ५ : ३१; ३५; ६ : ५;
 अनुकल्पयामः निस् ५, ६ :
 २५; अनुकल्पयीत या ७,
 ११^r; अनुकल्पयेत् द्राश्रौ ८, २,
 ९; ११; लाश्रौ ४, ६, ९; ११; ८
 ५, १०; १२, १२; ९, १२, ८; नुस्

२, १० : १९; ११ : ८; ३, ५ :
 ४; १२; ६ : ११; ७ : १०; ८ :
 ५; ९ : ८; १२ : ११; १२; १८;
 १६ : ५; १०; निस् ४, ३ : ३७^s;
 ५, २ : ९; ६, १० : २३; ८, १० :
 ७; ९; ९, १० : ३५; १०, १ :
 २८; हिध १, ७, ७^m.
 ३ अनु-कल्प^t- -ल्पः अप ४८,
 १४७^u.
 अनु-कल्पन- -नात् निस् ८, १० :
 ८.
 अनु-कृत्स, सा- -सम् नुस् २, १४ :
 ३; निस् ९, ५ : ३५; ६ : ६;
 -साः नुस् २, १४ : ५.
 अनु-उक्त, क्त्वा- पाग ८, १, ६७; -क्तः
 वैध १, २, ४; ५; -क्तम् काश्रौ
 -क्ता शंघ ७७; -क्ताः शुअ ३,
 १३०; साअ १, ५८९; -क्तानाम्
 विध ६, १७; शुअ ३, ७६; -क्तानि
 कौस् ३२, २६^v; -क्ताम् आमिष्ट
 १, ६, १ : ३; -क्ते वैष्ट ६, १ :
 १३; १४; कप्र १, ६, ११; अअ
 ८, २; मीस् ४, ४, ३३; ६, २,
 ५; -क्तेषु अप. ६९, ४, ३.
 अनुक्त-क्रिय^w- -येषु अअ १, ३२.
 अनुक्त-गोत्र^x- -त्रः ऋअ २, ८, १;
 -त्रम् ऋअ १, २, ३; २, ५, १;
 -त्राः ऋअ २, ६, ५२; साअ १,
 ४३५.
 अनुक्त-त्व- -त्वात् द्राश्रौ १५, ३,
 १४; लाश्रौ ५, ११, १४; पावा

a) अस. वा. क्वि. । उप. नाप. = कल्प-सूत्र- । b) नाप. (गौण-विधि- । तु. मनुः ३, १४७ प्रभृ.], तत्परकल्पसूत्र-विशेष- [पा.] च । प्रास. । c) तद्वेदेत्यर्थे ठक् प्र. । कप्र. तु तत्रभवीयष् ठक् प्र. (पा ४, ३, ६७) । d) वैप १, परि. च द्र. । e) विप. (पशु-) । गस. उप. कर्त्तरि प्र. । f) विप. (धेनु-, वडवा-) । प्रास. उप. = आयुस्- । g) विप. । प्रास. । h) पा १, ३, ७९ इत्यत्राज्यं परामृष्टः द्र. । i) माप. । j) नाप. (कर्म-विशेष-) । k) षस. । l) सप्र. अनुकल्पयीत <> अनुकल्पः इति पाभे. । m) सप्र. सबनानि अनुकल्पयेत् <> सबनानुकल्पम् इति पाभे. । n) °नू इति पाठः ? यनि. श्लोचः (तु. संस्कृतुः इति.) । o) विप. । षस. ।

१, २, ६४; २, २, २९.
 अनुक्त-देश-काल^a - लानाम् मीस्
 ११, ४, १.
 अनुक्त-द्रव्य^b - व्याणाम् विध ५,
 ८८.
 अनुक्त-निष्कृति^c - तीनाम् विध
 ५४, ३४.
 अनुक्त-पा(द>)दा^d - दाः अत्र ८,
 १० (६); ९, ७.
 अनुक्त-मृग-वध^e - धे विध ५०,
 ४२.
 अनुक्त(क्त-ऋ)र्धि-सूक्त^f - क्तेषु अत्र
 १, ३२.
 अनुक्त-वत् अप ७०, २, २.
 अनुक्त-विधिक^g - क्तेषु अप १४,
 १, ९.
 अनु^h√कम्, अनुकामति भाश्रौ १०,
 १५, ६; वाश्रौ ३, २, १, १८; ६, ६;
 ४९; अनुकामाम बौश्रौ ९, १४ :
 २; ४; १७; अनुकामेत् गोश्रु २, २,
 ११; शंघ १५८; २५३; ३३६.
 अनुक्रमिष्यामः आपश्रौ; या २,
 ५; ४, १; ७, १४; ९, १; १४,
 १०; अनुⁱअक्रमीत् आपश्रौ
 १३, ७, १६; हिश्रौ १०, ५,
 १; अनु^j(अक्रमुः) साश्र १,
 ५०२.
 अनुचङ्कम्यते भाश्रौ ६, १, ३.
 अनु^kक्रम^l - मः निस् ६, ७ : १८;
 वृदे १, ७९.
 अनुक्रम-क्रमण^m - णम् वाश्रौ
 ३, ३, २, २.

अनु-क्रमण-> अनु-क्रमणⁿ - णम्
 पावा ३, ३, २०; ६, ३, १४.
 अनुक्रमण-सामर्थ्य^o - र्थ्यम्
 पावा २, १, ५८.
 अनु-क्रम्य आश्रौ १, ६, ५; बौश्रौ
 २२, ६ : १४; १६; वाश्रौ ३,
 २, ६, ४९; कौशि ४६; ५४.
 अनु-क्रान्त,न्ता-न्ताः आपश्रौ १७,
 २६, २; वृदे ८, १२९; या ७, १३;
 ८, २१; माशि १, १; -न्तानि
 या १, १२; २, ७; १०, ४२.
 अनुक्रान्त-मान^p - नात् शांश्रु
 ६, ६, १६.
 अनु-कामत् - मन् वाश्रौ २, २, ३,
 १; -मन्तः शांश्रौ १, १६, ११;
 २२; ऋश्र १, ३, ८; शुश्र ५, ८.
 अनु^qक्रम^r - मम् अप १४, १, १;
 -मात् कप्र २, ३, २; वैध २, ५,
 ४; ऋश्र ३, ८; वृदे १, ८५;
 माशि ११, २; -मेण आम्रिगृ २,
 ४, ६ : १४.
 अनुक्रम-चरण^s - णात् बौध ३,
 १, ३.
 अनुक्रम-तस् (:) वृदे १, ४६.
 अनु^t√क्री > अनु-क्री^u - क्रिया
 आश्रौ ९, ५, १२; शांश्रौ १४, ४२,
 ६; आपश्रौ २२, ४, ३; बौश्रौ
 १८, २३ : ७; हिश्रौ १७, २, ५;
 -क्रियाम् बौश्रौ २३, १८ : २६;
 २६, ३२ : २०; २३; -क्रियौ
 हिश्रौ १७, २, १५; -क्रीः काश्रौ
 २२, २, १९; लाश्रौ ८, ४, ३;

५; ८.
 अनु^v√क्रीङ्, अनुक्रीङते पा १, ३,
 २१.
 अनु^w√कुञ्, अनुक्रीञन्ति या ४,
 २४१.
 अनु-क्रीश- -शः शंघ २५२; -शो
 काश्रौ २५, ४, ३०.
 अनुक्रीशिन् - शिने आश्रौ ८,
 १४, १; १६.
 अनु^x√कशा (=व्या), अनु^yअक्शात्
 माश्रौ ६, १, १, १४.
 अनु^z√क्ष्, अनुक्षरन्ति या ५, २७१.
 अनु^{aa}√खन्, अन्वखनन् वाधूश्रौ ४,
 २६ : २६.
 अनु^{ab}√ख्या, अनुचख्यौ बौश्रौ १८,
 ४५ : १०; अनुचख्युः वाधूश्रौ
 ४, ११ : १०; अनुख्यः कौश्रु ४,
 २१.
 अनु-ख्या^{ac} - ख्या बौश्रौ २०, १६;
 ४; २१, २२ : ३; -ख्याम् बौश्रौ
 २, १३ : ८ⁿ; बौगृ ४, ९, ७-
 १०; बौपि १, १० : १६; भागृ
 ३, २ : ९ⁿ; वैगृ ६, १६ : ८ⁿ.
 अनु-ख्या(त>)ता- -ताम् आम्रिगृ
 ३, ६, २ : २१.
 अनु-ख्यातृ^{ad} - ता आपश्रौ ४, ९,
 ६; भाश्रौ ४, १३, १; हिश्रौ ६,
 ३, २; आम्रिगृ ३, १, २ : २१, २;
 ३ : ९; आपध २, ६, २; बौध
 २, ८, १२^p; हिध २, २, २^p;
 -तारम् वैताश्रौ १८, १५;
 -तात्रे आश्रौ १, २, १; शांश्रौ १,

a) विप. । बस. उप. द्वस. । b) कस. । c) विप. । बस. उप. =प्रायश्चित्त- । d) विप. ।
 बस. । e) कस. > षत्. । f) बस. > कस. । g) भाप. । h) षस. । i) कस. उप. =आयुष्प्र-
 माण- । j) अस. वा. क्वि. । k) तृस. । Hul. अनुक्रमेण चरणात् इति । l) नाप. (सोम-वा एकाह-
 विशेष- वा [तु. अति-क्री-]) । गस. कर्मणि क्विप् प्र. । m) नाप. ([प्रन्थ-पर्याय-] ब्राह्मण-) । गस. उप. अङ्
 प्र. । n) नाप. [(अनु^{aa}अख्यत् [शौ ७, ८७, ४] इति मन्त्रेण ह्यमाना-) आहुति-] । o) वैप १, परि. च द्र. ।
 p) सप्र. हिगृ २, ११, ४ उपद्रष्टा इति पाभे. ।

४, ५; आपश्चौ २०, १, १७^३;
२४, ११, २; बौश्रौ ३, २७ : १३;
१५, ३ : ८; हिश्रौ १४, १, १२;
वैताश्रौ १८, १५^३.

अनु-ख्याय बौश्रौ १८, १३ : ५.

अनु-चिख्यापयिषत्- -षन् निस् ३,
५ : २४.

अनु-गङ्ग^३ > अनुगङ्गय- पावाग
४, ३, ५८.

अनु√गच्छ्, गम्, अनुगच्छति
काश्रौ १०, २, १४; ११, १,
३; ४; १४, ३, ९; शंघ ८०;
माशि ३, ३; अनुगच्छतः
काश्रौ ५, ८, २३; ७, ६,
१४; अनुगच्छन्ति वैश्रौ १४,
१५ : ९; हिश्रौ ७, ८, २२;
कप्र १, १०, ९; अप ४२, २,
५; अनुगच्छथ या ११, १६^३;
अन्वगच्छत् वाधुश्रौ ४, ३० : १४;
अनुगच्छेत् सुध १३; अनुगच्छेत्^०
आश्रौ; ३, १२, २१; काश्रौ २५,
३, १; ३, १०; १०, २०; आपश्चौ;
अनुगच्छेयुः आपश्चौ ९, १०, ५;
वैश्रौ २०, १७ : ९; १८ : १; हिश्रौ
१५, ३, १७; १८; पाश्रु ३, १०,
८; गौपि १, ४, १५; शंघ ४०३;
४०४; अनुगच्छेः अप्राय ३, ९.
अन्वगन् काश्रौ ६, ५, २०^३.
अनुगमयति आपश्चौ ९, ७,
१२; १६, ९, १०; भाश्रौ ५, ४,
५; ९, १०, १३; ११, १४; वाश्रौ
२, १, ३, १८; वैश्रौ १, ८ : ७;
१८, ७ : १३; हिश्रौ ३, ३, ५;
११, ३, १४; १५, २, २३; २९;
३, ३; २७; अप्राय १, ५; अनु-

गमयन्ति वाश्रौ १, ४, १, २२;
अनुगमयेत् आश्रौ ३, १२, २१;
अनुगमयेयुः आपश्चौ ९, १०, १२.

अनु-ग, गा^३ -गा वृदे ३, १३; -गाम्
माशि २, १४; -गोभ्यः भाश्रु ३,
१४ : ११^३; -गौः आपश्चौ
१, ७, १३; बौश्रौ २, ९ : ९; १०;
भाश्रौ १, ७, ८; हिश्रौ २, ७, २०;
भाश्रु २, ११ : ७.

अनु-गच्छत् -च्छन् शंघ ३९३;
-च्छन्तम् वृदे ३, १३२.
अनुगच्छन्ती- -न्ती अश्र १२,
५(३)^३.

अनु-गत- पाग ४, ४, १९; -तः
आपश्चौ ६, २, ८; वैश्रौ २०, ७ :
२; आमिश्रु १, ६, ३ : ५४; २,
७, २ : ३; आपश्चु ५, १५; भाश्रु
१, १८ : १५; हिश्रु १, २२, ४;
शंघ १५९ : ३; -तम् हिश्रौ ४,
५, ५६; अप्राय २, ४; ७; ५, ४;
-तयोः शाश्रौ ३, १९, १४;
-तस्य आपश्चौ ९, ६, १३; वैश्रौ
२०, १२ : २; हिश्रौ ३, ६, २८;
१५, २, १९; बौश्रु २, ६, २७;
-तान् आश्रौ ३, १२, २९; -ते
आश्रौ ३, १२, २७; १४, २३;
शाश्रौ ३, १९, १०; १२; काश्रौ
४, ८, १०; १६, ७, ३; २५, ३,
४; आपश्चौ ९, ९, ४; बौश्रौ २७,
५ : ७; भाश्रौ ९, ११, १३;
वैश्रौ १, ६ : १०; २०, १६ : ६;
८; ९; हिश्रौ ३, २, ५९; १५, ३,
३; शाश्रु ५, १, ८; आमिश्रु २, ७,
२ : ४; ४ : १; आपश्चु ५, १७;
बौश्रु २, ६, २८; ४, ११, १;

भाश्रु ३, २० : ७; वैश्रु ३, ६ : ४;
६, १५ : ८; १०; हिश्रु १, २२,
५; कौश्रु ७२, ३९; -तौ आपश्चौ
५, २९, १३; भाश्रौ ५, २१, १४;
माश्रौ ३, २, १६; वाश्रौ १, ५, १,
१; वैश्रौ २०, १४ : ४; हिश्रौ
१५, २, ३३; अप्राय ४, ४.

आनुगतिक- पा ४, ४, १९.

अनुगते(त-इ)ष्टि^० -ष्टिम् आपश्चौ
९, ९, २; भाश्रौ ९, १, १२; -ष्टीना-
म् वैश्रौ २०, १७ : १; -ष्टेः आपश्चौ
९, ९, १४; हिश्रौ १५, ३, १२.

अनु-गन्तुम् विध २०, ३९.

अनु-गन्त्- -न्तारः जैश्रु २, ५ : १०.
अनु-गमन- -नम् जैश्रु २, ५ : २२;
आपश्चु २, ४, २६; हिश्रु २, १,
७९; गौध ७, २; सुध ३६.

अनु-गमयित्वा आश्रौ ३, १०, १६;
१२, ७; आपश्चौ ९, ९, ७; १०;
१७, १२, ८; भाश्रौ ९, ११, ७;
१२, ५; १४, ९; वैश्रौ ३, १ :
१०; १९, ६ : ५७; २०, १३ :
४; ३२ : १; हिश्रौ १, २, १; १२,
४, २; १५, ३, ६; अप्राय ५, १.

अनु-गमय्य माश्रौ १, ५, २, ९; ३, ३,
२; ४, १.

अनु-गम्य वैश्रु ७, ६ : १; कौश्रु ३,
९, १४.

अनु-गम्य- -म्यः आश्रौ ३, १२, २०.

अनु-गम्यमान- -नः विध ९४, ३;
-नान् सु १८, १.

अनु-गामि(न् >)नी- -नी माश्रौ
२, २, ४, १९^३.

अनु√गण् > अनु-गणित^० (>
अनुगणित्- पा.) पाग ५,

a) पाभे. वैप १ परि. अनुक्शात्रे काठ २६, १२ टि. द्र. । b) गङ्गामनु इति अस. । c) उपसष्टस्य धा.

श्रमने वृत्तिः (तु. आश्रौ प्रभृ.) । d) विप., नाप. (अनु-यायिन्-) । गस. उप. कर्तरि डः प्र. (पावा ३, २, ४८) ।

e) नाप. । सस. पूष. = शान्त- [अग्नि-] । f) पाभे. पृ १६६ j टि. द्र. । g) णु इति पाका. ।

२,८८.

अनु/गद्>अनु-गादिन्-> -आनु-
गादिक- पा ५,४,१३.

अनु-गव- -वम् पा ५,४,८३.

†अनु/गा, अनुगात् आपथौ १४,
२२,३; बौश्री १८, १९: ७;
आमिष्ट ३, ७, २: २; बौष्ट
२, ४, १४; माष्ट १, २१, ८;
बौषि १, १७: २३; वाष्ट ४,
१४; अनुगेषम् आपथौ १०,
१९,१०; २२,१७, १०; बौश्री
६,९: १०; २१,१०: २९; माश्री
१०, १२, १८; माश्री २, १, ३,
१७; वाधूश्री २, २१: ४; वैश्री
१२, १४: १२; हिश्री १०, ३,
१६; अत्राय ६, २.

अनु-गु^०->अनुगवीन- पा ५,२,१५.

अनु-गुण-(>अनुगुणिक-पा.) पाग
४,२,६०; ६३.

अनु/गुप् >अनु-गुप्त,प्ता- -प्तम्
भाश्री १,१,३; पाष्ट २, १, २२;
१४, २२; माष्ट २,९,१०;-प्तस्य
गो २,३४; -सा: गोष्ट १,१, ९;
२४; ५,२०; -प्ताम् कौस् ६०,
२५; वाधूश्री ३,१०१: ५; कौष्ट
३, १०, १५; शांष्ट २, १४, १४;
पाष्ट १,८,१०; -सेन भाश्री १,
१, ३.

अनु/गृ (शब्दे), अनुगृणाति शाश्री
१०, १३, २८; १६, १, २४;
अनु गृणाति या ३, २०^०फ.

अनु/गृह्, ग्रह्, अनुगृह्णाति क्षुस् ३,
१: १५; १०: २२; ४०; ११:
२३; २७; १२: २१; निस् ३,
९: ३७; ४२; ४, ४: ११; १२; ५,

१: १२; २१; ७: २०; २९; ३०;
६, ६: २२; ७, ६: १५; ९: ६;
१२: ११; ८, ४: २७; ७: ३४;
३५; ३९; ९: ३४; १०: २४;
२, ५: ३८; अनुगृह्णासि हिष्ट
१, ११, २^१; अनुगृह्णीष्व आमिष्ट
३, १२, १: १९; अनुगृह्णीयात्
कौस् ५६, १४.
अनुगृह्णाते निस् ४, ७: १०; ५,
९: १३; १०, ३: ४४; ४: १९;
अनुगृह्णाते निस् ८, १३: १९.
अनुगृह्णाते हिश्री १६, १, २३.
अनुजिष्टक्षेत् निस् ८, १३:
२१.

अनु-गृहीत->अनुगृहीत-परोक्ष^०-
-क्ष: क्षुस् २, १४: ७; ९; -क्षे
निस् ४, ४: १२.

अनुगृहीतपरोक्ष-तर- -र:
क्षुस् २, १४: १२; १४.

अनुगृहीत-पृष्ठ^० -ष्ठ: क्षुस् २,
१४: १; ६; -ष्ठे निस् ४, ४:
११.

अनुगृहीत-बृहद्-रथन्तर^० -र:
क्षुस् २, १४: १०.

अनु-गृह्णत्- -ह्णत् निस् ७, १०:
२३; -ह्णन्त: शाश्री १५, २७, १.

अनु-गृह्ण आपथ २, ५, ६.

अनु-ग्रह^० -ह: निस् ८, ६: ५३;
५५; १३: १८; २४; ४५; २, १: ६;
१०, ७: ३०^०; -हम् आप १२^२,
५, ९; -हात् शंघ २८६; मीस्
४, १, ४७; ६, ५, ३५; ७, २०;
-हान् बौश्री २८, १२: १;
-हाय लाश्री १०, ५, ४; निस्
४, ६: २१; ५, १: २०; ८, ४:

६, ९, ३: २०; -हे शंघ २९०.

अनुग्रह-करण^१- -गम् शंघ
३३७.

अनुग्रहा(ह-अ)र्थ- -र्थम् वाध
२३, ४३.

अनुग्रहिक^२- > ^०क-हौत्क-शु-
ल्विक-उत्तरेष्टक-वैष्णव-अध्वर्यविक-
क-चानुहौत्क-गोनामिक-आकुल-
पाद्-रहस्य-प्रतिग्रह-यमक-वृषो-
त्सर्ग-प्रश्न-द्रविण-षट्कारण-प्रधा-
न-सान्देहिक-प्रवराध्याय- रुद्र-
विधान-छन्दोऽनुक्रमणी-अन्त-
क्यकल्प-प्रवासविधि-प्रातरुप-
स्थान-भूतोत्पत्ति^३- -त्ति: वाष्ट
१, १.

अनु-ग्रहीतव्य- -व्यम् मीस् १०, ६,
१०.

अनु-जिष्टश्रत्- -क्षन् क्षुस् ३, १२:
१९.

अनु-जिष्टक्षित- -त्तम् निस् ६, ६:
१२.

अनु/गौ, अनुगायति हिश्री १४, ३,
५८; अनुगायेत् निस् ३, १२: ३.
अनुजगौ निस् २, २: २१.
अनुगापयेत् गोष्ट ३, २, २६; ३१;
द्राष्ट २, ५, २९.

अनु-गान- -नम् लाश्री १०, ९, १०;
निस् ६, ७: ६२; द्राष्ट ३, २,
२२; -नानि लाश्री ७, ६, १४;
१६; १०, ९, ७-९; निस् ६, ७:
५१; ५२; ५४; ५९; -नाय लाश्री
७, ६, १३; -ने लाश्री ७, ७, १२.

अनु-गापन- > ^०न-कल्प^४- -ल्प:
गोष्ट ३, २, ४७.

अनु-गाय निस् ४, ३: ११.

a) अस. । b) पाप्मे. वैप १ परि. अनु...गृणाति टि. द्र. । c) विप. । बस. । d) भाप., नाप.
(बौश्री.) । e) ग्राह: इति पाठ: ? यनि. शोध: (तु. संस्कृत: टि.) । f) षस. । g) नाप. (परिशिष्ट-विशेष-)
मत्पर्यायिष् ठन् प्र. । h) द्रस. > मलो. कस. ।

अनु-गीत- -तः गोपि १, ३, २०;
-तम् आश्रौ ४, ८, २४.
अनु-ने(य>)या- -याः गोप ३,
३, ८.
अनु-ग्राम^a- -मम् लाश्रौ ९, २, २४.
आनुग्रामिक- पा ४, ३, ६१.
अनु√घुष् > †अनु-घुष्य > प्या
शुभा ३, ९७; (अनु) घुष्या
तैप्रा ३, १२.
अनु√चक्ष्, अनुचक्षते ऋप्रा १७,
२०.
अनु√चर्, अनु...चरतः हिपि १८ :
१०; अनुचरन्ति आपश्रौ २०,
५, ११; निसू ५, १३ : १७;
अनुचरेत् निसू ४, २ : १९; शंघ
३८१; अनुचरेम बौग २, २, ८१.
अनुचचार बौश्री १८, ४४ : २;
†अन्वचारिषम् आश्रौ ३, ६,
२७; आपश्रौ.
अनु-चर^b- -रः आश्रौ १०, १०,
४; ६; शाश्रौ १०, ३-४, १३; ५,
२२; ६, १७; ८, १३; १७, ९, ३;
-रम् शाश्रौ ७, १९, ९; -राः
शाश्रौ १०, ५, ७; वैताश्रौ ११, ३;
१४, ७; -रान् अप्राय १, १.
अनुचरी^c- -री वाधूश्रौ
४, ८६ : ८; १६; २४; -रीः काश्रौ
२०, ८, २६; -र्यः आश्रौ १०,
८, ११; १३; शाश्रौ १६, ४, ५;
काश्रौ २०, ५, १७; ६, २०;
लाश्रौ ९, १०, ४; ६; वैताश्रौ
३६, ३३; ३८, २.
अनुचरी-जाति ->
तीय^d- -यान् काश्रौ २०, २, ११

आनुचर्य^e- -र्यम् निसू ८,
७ : २७.
अनुचर-प्रभृति^f- -ति शाश्रौ ११,
१२, १२; १५, ७; १५, २, २२;
८, ५; १६, १४, ९; २१, ३२.
अनु-चर्य कौसू ८३, १७.
अनु-चारक^g- (> आनुचारक-पा.)
पाग ४, ४, ४८.
अनु√चि > अनु-चित^h- -चिते
आपश्रौ १७, १३, ३१.
अनु-चिख्यापयिषत्- अनु√ख्या
द्र.
अन्-उचित- -तानाम् अप ७२, ३,
१०.
अनु√चिन्त्, अनुचिन्तयेत् याशि
१, २१.
अनु-चिन्तयत्- -यन् बौध १, ५,
८८; शैशि १५६.
अनु√चुद् > अनु-चोदि (त>)
ता- -ताम् विध ५७, ११.
अन्-उच्च- -च्चम् वैश्री ४, १० : ६.
अन्-उच्चारयित्वा बौश्री २७, १ : ७;
२९, २ : ६.
१अनु-च्छन्दसⁱ- -सम् बौश्री ३,
८ : ३; २१ : २; ८, १० : १७;
१०, ५ : ३; १६ : २; १८ :
५; २५-२६ : १३; ३० : १२;
३३ : ३; ५९ : २१; ११, ८ :
१५; १२, ९ : १९; १५, २४ :
८; १०; ३० : ८; १९, २ : ४;
वैश्री १८, १ : ५८; १७ : १४;
४८; निसू ८, ५ : ३८; आमिण्
२, ४, ६ : २१; ३, ८, २ : २०;
बौग १, १, १७; ९, ४; ६; २, १,

३; २, ११; ३, ३; ५; ५, ३०; ३,
८, ३; १०, ४; ४, ४, १; बौपि १,
१५ : ३०; २, ९, ७.
२अनु-च्छन्दस^j- -सैः आमिण् २, ४,
६ : ३२; ३६.
अनु√च्छिद् > अनु-च्छिद^k- -दः
सु १५, ४.
†अनु-च्छिन्दत्- -न्दन् शाश्रौ २,
८, १३; आपश्रौ ५, ५, ९; २०,
२, ५; बौश्री २, १४; ९; १५, ३ :
१७; २०, २७ : २२; हिश्री ३,
२, ४८.
अन्-उच्छिष्ट- -ष्टम् वाध ११, १०.
अन्-उच्छिष्टीकुर्वत्- -र्वन्तः बौश्री
६, १२ : १.
अनु√च्छो, †अनुच्छय कौसू ६४,
१०; अत्र ९, ५.
अन्-उच्छ्रयत्- -यन्तम् बौश्री १७,
११ : ११.
अन्-उच्छ्रित्य काश्रौ ८, ८, २४.
अन्-उच्छ्रवसत्- -सन् काश्रौ १२,
५, ९; जैश्रीका १७७; कौसू ४७,
३३; -सन्तः द्राश्रौ ३, ४, १२;
-सन्तौ आपश्रौ २, ६, ६; भाश्रौ
२, ६, ११; वैश्री १५, ४ : ४.
अन्-उच्छ्रवसन्ती- -न्ती आपश्रौ
२, ६, २; भाश्रौ २, ६, ६; वैश्री
५, ३ : १४; हिश्री १, ७, ३१.
अन्-उच्छ्रवस्य आश्रौ २, १७, ४.
अन्-उच्छ्रवास-वाद्^l- -दः आपश्रौ
२४, ११, १२.
अन्-उच्यमान, ना- -ना कप्र २, ५,
१; -नानि मीसू १०, २, ४९.
अनु√छद्, अनुछादयेत् अप्राय ३, ७.

a) =मामेऽन्तः । अस. । b) नाप. (अनुगामिन्, तृच-) । c) विप. (गायत्री- [वाधूश्रौ.]), नाप. (दासी-) । d) विप. (रक्षिन्-) । बस. > स्वार्थे छ > ईयः प्र. । e) भाप. । f) विप. । बस. । g) तु. पागम. पाका.; भाण्डा. BPG [पदान्तरे] अनु-वा° (> आनुवा°) इति । h) विप. > नाप. । गस. । i) अस. वा. क्वि. । j) नाप. (मन्त्र- ?) । तस. । k) विप. (सुपर्ण-) । गस. । l) षस. पूष. तस. ।

† अनु/जन्, अनुजायते आपश्रौ
१४, १४, ३; वाधूश्रौ ४, ६८ :
७; अनुजायताम् आपमं १,
१३, २; कौश्र १, १२, ६; शांश्रु
१, १९, ६; आमिश्र १, ५, ५ :
१६; वाश्र १६, ६; अनुजायन्ताम्
आपमं २, ६, १५; आमिश्र १, १,
४ : २०; बौश्र २, ५, ७१; भाश्रु
१, ६ : ५; हिश्र १, ७, १७.
अनुजज्ञे वृदे ५, ८०५.

१अनु-ज, जा^० -जः बौश्रौ २,
९ : २०; २२; वैश्र ६, १३ : ७;
१४ : ३; -जस्य कप्र ३, ५,
११; -जा बौश्रौ २४, ३८ :
१२; -जायाः आपश्रौ २०,
३, ७^२; बौश्रौ २६, १० : ११;
वाश्रौ ३, ४, १, २०^२; हिश्रौ १४,
१, ३०^२; -जायै बौश्रौ १५,
१ : १५; ५ : ७; २६, १० : १०;
वाधूश्रौ ३, ६९ : ३७; -जेन वैश्र
६, १३ : ६; विश्र ३७, १५.

२अनु-जा^० -जाम् पाश्रु ३, ५१.

अनु/जप्, अनुजपति वैताश्रौ १६,
९; अनुजपेत् शाश्रौ ३, २०, १८;
१९; अनुजपेयुः द्राश्रौ ३, २, ९;
लाश्रौ १, १०, ७; ९, १०, ७.

*अनु-जावर^० -> आनुजावर^० -रः
आपश्रौ २, १९, ४; ६, ४, १;
बौश्रौ १३, २७ : ५; ९; भाश्रौ
६, ९, १; हिश्रौ २२, ४, १३; १४;
-रम् भाशि १०४^१; -रस्य
आपश्रौ २, १९, २; हिश्रौ २, २,
१६; १९.

अनु/जीष्, †अनु...जीवात्, अनु-

(जीवात्) आमिश्र ३, ८, ३ : ७;
बौपि १, १५ : ७८; अनुजीवाम
बौश्रौ ६, २४ : ३१.

अन्वजीविषुः वाश्रु ११, २१.

अनु-जीविन्^० -विनाम् शंघ २५१.

अनु/जुप्, अनु...जुषताम्, अनु-
(जुषताम्) शांश्रु ६, ५१.

अनु/क्षा, अनुजानाति आपश्रौ;
अनुजानीहि वाधूश्रौ ३, ६९ :
६; अनुजानीयात् आश्रौ १,
१३, ७; आपश्रौ ६, ७, २;
माश्रौ ५, २, १५, ३१; अप्राय ६,
६; आपध २, ९, ३; २२, २४;
हिश्र २, १, ११८; ५, १५५.
अनुज्ञापयति आश्रु ४, ७, १८;
अनुज्ञापयित बौश्रौ २४, १२ :
३; २५, ४ : ३; अनुज्ञापयेत् अप
१३, २, ७; ४४, २, ८; मीसू ३,
५, ४२.

अनु-ज्ञा^० -ज्ञया वाध ७, १४; शंघ
३३७; -ज्ञाम् निस् ४, २ : २५;
अप २३, १२, ५.

अनुज्ञा-पद^० -दम् वैताश्रौ २, १.
अनुज्ञै(ज्ञा-ए)षणा^० -णायाम्
पा ८, १, ४३.

अनु-ज्ञात, ता- पाग ८, १, ६७; -तः
काश्रौ २, ३, ३; आपश्रौ;
-तम् बौध ३, २, २; -तस्य गौध
२, ५६; -ता काश्रौ १०, ७, ५;
-ते आपध १, २५, ५; हिश्र १,
७, २; -तौ वृदे ६, ३५.

अनुज्ञात-भक्षण^० -णम् मीसू
३, ५, ४१.

अनु-ज्ञातृ- तारम् आपध १, २५,

५; हिश्र १, ७, २.

अनु-ज्ञान- नम् काठश्रौ १६६;
वाश्रौ १, १, २, १४; कौसू ९२,
१७; गौध १२, ४९; -नात् वाध
११, १५; १५, ५.

अनुज्ञाप्य आमिश्र.

अनु-ज्ञाय आपध १, २८, ११.

अनु-ज्येष्ट^० -ष्टम् आश्रौ २, ३, १३;
वाश्रौ १, ५, २, २४^१.

†अनु/तक्ष, अनुतक्षिषत् शाश्रौ
७, ९, १^१; अनुतक्षुः बौश्रौ १०,
४९ : १९^१.

†अनु/तन्, अनु...तनुहि काश्रौ ३,
८, २२; द्राश्रौ ६, ३, ९; अनु...
तनु आपश्रौ ४, १६, ४; माश्रौ
१, ४, ३, १५; वाश्रौ १, १, ४,
२८; हिश्रौ ६, ४, २९; ६, १७;
लाश्रौ २, ११, ३; अनु...तनु-
तम्, अनु...तनुत माश्रौ १,
४, ३, १५.

अनु-तन्त्र^० -न्त्रम् निस् ६, ६ : २५;
७ : ४६; ७, ४ : ३८; ५५.

अनु/तप् > अनु-ताप^० -पे पा ३,
१, ६५.

अनु-तिल^० (> आनुतिल्य- पा.)
पावा ४, ३, ५९.

अनु-तीर्थ^० -थंम् आमिश्र २, ६, ३ :
५६; बौध २, ३, ३; ५, ३०.

अनु/तुद्, अनुतुदति क्षुसू ३,
६ : ५.

अनु-तुञ्ज- नम् क्षुसू ३, ६ : ५.

अन्-उत्कर्ष^० -र्षं मीसू ६, ५, ३८.

अन्-उत्की(र्ण)णी^० -र्णं काश्रौ
२६, २, १४^१.

a) विप., नाप. (कनिष्ठ-भ्रातृ-)। उस.। b) वैप १ द्र.। c) वैप १, परि. च द्र.।

d) अनु इति पाठः ? यनि. शोषः (तु. तैत्रा २, २, १०, १)। e) नाप. (मृत्यु-)। गस.। f) भाप.। गस.।

g) षस.। h) अस. वा. क्वि.। i) पामे. वैप १ परि. अनुतक्षुः तै ५, ६, ८, ६ टि. द्र.। j) तस.।

k) विप. (क्षुन्-)। तस.। l) पामे. पृ १६० गृ द्र.।

अन्-उत्खे (य>) या^०-याः हिपि
१३: ७.
अ-नुत्त^०- -त्तम् शाश्रौ ११, २, ५१.
१अन्-उत्तम^०- -मः तैप्रा १४, २४;
-मस्य शौच २, २०; -माः
ऋप्रा १२, १२; -मात् तैप्रा २१,
१२; शौच १, ९९; -मानाम् शौच
२, २; -मे शुप्रा ४, ११७; शौच
२, २०; -मैः ऋप्रा १२, ५, ११.
२अन्-उत्तम, मा^०- -मम् सु २, ६;
२०, ३; अय ११, २, ३; पा ८,
१, ५३; -मान् अप १, ४८, ३;
-माम् अप ४, १, २४.
अन्-उत्तर-पद^०- -दे पावा ८, २, ८;
३, १५.
अन्-उत्तर-पद-स्थ^०- -स्थस्य पा
८, ३, ४५.
†अन्-उत्तर-वेदि, दी [बौश्रौ.] क^०-
-कम् आपश्रौ २२, २५, १५; बौश्रौ
१८, ६: ४; २६, ३०: १६; हिश्रौ
२३, ४, ९; -के आपश्रौ ८, १, ८.
अन्-उत्तरा(र-अ)घर^०-ता- -तायै
कौसू ६२, ८.
अन्-उत्तरा(र-अ)र्थ^०- -र्थः मीसू
८, ४, १५.
अन्-उत्तरी(य>)या^०- -या शंघ
७७; ७८.
अन्-उत्तान^०- -नम् वैगृ १, १३: ८; ९.
अन्-उत्थ^०- -स्थः अप्राय ३, ६.
अन्-उत्थाय हिध १, २, ५८.
अन्-उत्थित, ता- -तायाम् बौगृ २,

१, २१; आपध १, १६, १९; हिध
१, ५, १८; -तेभ्यः वैगृ २, २:
१६.
अन्-उत्पत्ति^०- -तिः पावा ३, १, २६;
-सौ पावा ५, २, १२; मीसू ४,
३, ३४.
अनुत्पस्य(ति-अ)र्थ^०- -र्थम् पावा
३, १, २.
अन्-उत्पन्न- -क्षेषु अप ७२, ३, १.
अनुत्पन्न-दन्तक^०- -कः शंघ ३६३.
अनुत्पन्न-पु(त्र>)त्रा^०- -त्राः बौपि
३, ५, २.
अन्-उत्पूत^०- -तम् आश्रौ २, ६,
१०; आपश्रौ ९, १३, १;
भाश्रौ ९, १५, ८; माश्रौ १, २,
५, १७; वैश्रौ २०, २७: १;
हिश्रौ १५, ४, १^३; कौसू २, २७;
अप्राय ४, १; -ते भाश्रौ ८, ११,
१५; ९, १५, १०; माश्रौ ३, १,
२१; -तेन आपश्रौ १, ८, १;
भाश्रौ १, ७, ७; माश्रौ १, १, २,
६; ५, १, २; वाश्रौ १, २, ३, ८;
हिश्रौ २, ७, १३; मागृ २, २, ४.
अनुपूत-सर्विस^०- -र्विषा वैगृ ४,
५: १४.
अन्-उत्पूय भाश्रौ ८, ११, १५.
अनु^०त्सर्, अन्वत्सरत् वाधूथौ ३,
१७: ४; अनु^०त्सरत् वाधूथौ
३, १७: ५.
†अन्-उत्सर्ग^०- -र्गः आपश्रौ १, २१,
४; -र्गम् बौधौ १६, १६: १.

अन्-उत्सव^०- -वे शंघ ७८.
अन्-उत्सहमान- -नस्य भाश्रौ ३,
१, १६.
अन्-उत्साद^०- -दम् निसू २, ८: ३१.
अन्-उत्साह^०- -हे दाश्रौ ९, ३, २३;
लाश्रौ ३, ७, ८.
अन्-उत्सिक- -कम् काश्रौ ७, ४,
२६.
अन्-उत्सृजत्- -जन् आपश्रौ १, १९,
६; ७; ३, २, १; भाश्रौ १, २१, ४;
५; ३, १, ९; वाश्रौ १, २, ४, ४३;
वैश्रौ ४, ६: ११; १२; ८: ५; ६,
११: ९; हिश्रौ १, ५, ४५; ४६;
२, ३, १५.
अन्-उत्सृत्- -सः या १२, १४; -से
काश्रौ ४, ८, १९.
अन्-उत्सृष्ट- -ष्टः आपृ ४, ८, ३७;
-ष्टम् आपश्रौ २१, २५, ७.
अन्-उत्सृष्टा(ष्ट-अ)ध्याय^०- -यः
आपश्रौ १५, २१, ५; भाश्रौ ११,
२२, ९.
अन्-उत्सृष्टयत्- -क्ष्यन् भाश्रौ ५,
२, १०, ३८.
†अन्-उदक.का^०- -कः कौसू १२१,
१; शंघ ५२; -कम् काश्रौ ४,
१२, १०; १०, ३, १३; आपश्रौ
२०, ४, ५; हिश्रौ १४, १, ३८;
गोध २०, ४; -काः काश्रौ १०, ५,
११; -कायाम् लाश्रौ १०, १७,
२; -के कौसू ९३, २८; पा ३,
२, ५८; ३, १२३.

a) विप. । तस. । b) वैप १, परि. च द्र. । अन्-उत्त- (< √उन्द्) इति मन्वानाः पाक. (८, २, ६१) प्रसू. चिन्त्याः । c) विप. । बस. । d) तस. । उप. कस. e) विप. । तस. उप. कस. > उस. । f) विप. (राजसूय-). बस. (तु. वैप १, २०० a) उप. कस. । g) तस. > दस. । h) विप. तस. उप. बस. । i) विप. । बस. उप. नाप. j) सप्र. अनु<>अनु इति पाभे. । k) तस. उप. भाप. । l) वैप १, परि. च द्र. । m) नू इति पाठः ? यनि. शोषः (तु. आपश्रौ ९, १३, १) । n) कस. । o) वैप १ द्र. । p) तस. वा. क्वि. । q) विप. । तस. उप. बस. तत्र उप. = वेदशाखा- (तु. संस्काररत्नमाला पृ ३२१, C. च; वैतु. छद्दस=अनु [नु-उ] इति ?) । r) कचिद् वा. क्वि. ।

अनुदक-ग्रहणा(ण-आ)नर्थक्य-
 -क्यम् पावा ३, ३, १२३.
 अनुदक-सूत्र-पुरीष-करण-णे
 विष ५४, १०.
 अनुदकसूत्रपुरीषकरण-क-के
 सुघ १८.
 अन्-उदक-खात^b - तम् कौस् ३९,
 २४.
 अन्-उद(क्य>)क्या^c - क्या वाध
 ५, २५.
 †अनु-दक्षि^d - क्षि ऋप्रा ४, ९८; १०,
 ७५.
 अन्-उद-अग्र^e - अग्रम् हिश्रौ २, ४,
 २३.
 अन्-उदच्छ, ङ्च् - दीचाम् पा ६,
 २, ८९.
 अन्-उदक^f - कः शाश्रौ ६, १२, ५.
 अनु-दर्शयित्वा अनु ✓ दृश द्र.
 अन्-उदवसाय आपश्रौ ५, ३, २२;
 वैश्रौ ८, ३ : १०; हिश्रौ ५, १,
 ४; ४३; २, ६९; ५, २८; ६, ४.
 अनु-दशम^g - मम् वाध १७, ४३.
 अनु ✓ दा (दाने), †अनु...दायि
 आश्रौ २, १८, १९; ९, ५, १६;
 बौश्रौ १३, ११ : ४; १२; १३ :
 २; ३५; ११; हिश्रौ २२, ५, २१.
 अन्-उदात्त^h - त्तः या ५, ५; ऋप्रा
 ३, १; ५; शुप्रा १, १०९; तैप्रा
 १, ३९; ३, १४; ४, ४३; १०,
 १६; १२, १०; १४, २९; १६, ८;
 अप्रा २, ३, २३; शौच १, ९६;
 माशि २, ५; ५, ५; कौशि २; ४;
 ६; शैशि २०; १२७; १२९;
 १३२; २४०; ३४८; पाशि ११;
 याशि १, १; पा १, २, ३०; ३८;

२, ४, ३२; पावा ६, १, १५४;
 -त्तम् आश्रौ ७, ११, १६; या
 १, ७; ४, २५; ५, २२; ऋप्रा १,
 ७४; ८४; ३, ७; ९; ११, ५४;
 १७, २७; २८; शुप्रा १, १२३;
 १४८; १६१; २, २; ५२; ६३;
 ४, ४९; ८४; १३७; १४१; ६, १;
 अप्रा १, १, ५; १२; २, २, ६; ३,
 ४, १; शौच १, १५; ३, ६७; ७१;
 ७४; उस् ८, ८; माशि ५, ४; ६;
 आशि ८, २१; शैशि १४४;
 १७९; याशि १, ५६; भास् १,
 १५; पा ६, १, १५८; १८६; ८, १,
 ३; १८; ६७; २, १००; पावा ८, १,
 ६८; -त्तयोः ऋप्रा ५, ३२; ३९;
 -त्तस्य माशि ६, २; ७, ४; भास्
 १, २१; पा ६, १, ५९; १६१; ८,
 २, ४; ४, ६६; पावा १, २, ३२;
 -त्ताः अप्र ४७, ३, ५; अप्रा
 २, ३, २८; याशि १, ५९;
 -त्तात् अप्रा १, १, २३; पा ४,
 १, ३९; ७, २, १०; पावा ६, १,
 ९; ७, २, १०; -त्तान् आश्रौ ७,
 ११, ३; -त्तानाम् ऋप्र ३, १९;
 तैप्रा २१, १०; कौशि ३२; पा,
 पावा १, २, ३९; -त्तानि अप्रा
 १, १, १९; ३, २; ११; २, ३, २३;
 ४, ३; उस् ८, १२; माशि ५, ७;
 कौशि ३०; -त्ते शुप्रा ४, ६;
 ८४; तैप्रा ६, ४; ८, ९; १२, ९;
 शौच ३, ५८; पाशि १२; याशि
 १, ५७; ८०; पा ६, १, १२०;
 १९०; ८, २, ६; पावा ६, १, १५४;
 १५८; १८६; ७, २, ४४; -त्तेन
 शौच ४, २; याशि १, ८१; -त्तौ

आश्रौ ७, ११, १२; भास् १, ६;
 पा २, ४, ३३; ३, १, ४.
 अनुदात्त^o पा १, ३, १२; ३, २, १४९;
 ६, १, १८२; पावा ३, २, १४९.
 अनुदात्त-ग्रहण-णम् पावा ८, १,
 २७.
 अनुदात्तग्रहणा(ण-आ)नर्थक्य¹-
 -क्यम् पावा ६, १, १५७; १८२.
 अनुदात्त-तर-रः आश्रौ ७, ११, १२
 अनुदात्त-ता-तया अप्रा २, ३, २८;
 -ताम् भास् १, २३.
 अनुदात्त-त्व-त्वम् पावा १, २, ३८;
 ३, १, ३; ४, १, ६०; ६, १, १८२;
 -त्वात् पावा ७, २, १०; -त्वे
 पावा ६, १, १८२^३; ८, १, ६०; ७०.
 अनुदात्त-पर¹-रम् आश्रौ ८, ३, ९;
 शुप्रा ४, १३५.
 अनुदात्त-पूर्व¹-र्वात् शौच ३, ५७;
 -र्वै तैप्रा २०, २.
 अनुदात्त-प्रकृति¹-ति या १, ८; ५,
 २३.
 अनुदात्त-प्रत्यय^h-ये माशि ७, ६.
 अनुदात्त-वचन¹-नम् पावा १, २,
 ३२; -नात् पावा ३, १, ३; ६,
 १, १५४; २, ४९.
 अनुदात्त-विशेषण¹-णम् पावा ६, १,
 ९; ७, २, १०; -णे पावा ८, १, २७.
 अनुदात्त-संगम¹-मः ऋप्रा ११, ५७.
 अनुदात्त-सम¹-मः तैप्रा १, ४५;
 ४६.
 अनुदात्ता(त्-आ)दि-देः पा ४, २,
 ४४; ३, १४०; पावा ४, ३, १४०;
 १५४^३; -दौ पा ६, २, १४२.
 अनुदात्तादि-त्व-त्वम्, -त्वात्
 पावा ४, ३, १४०.

a) कस. उप. द्वस. > षस. । b) बस. उप. तुस. । c) नाप. । तस. उप. = रजस्वला- । d) वैप १,
 परि. च द्र. । e) विप. । तस. उप. बस. । f) तस. । g) अस. । h) विप. । तस. बस. च । उप.
 = पारिभाषिक-संज्ञा- । i) षस. । j) विप. । बस. । k) कस. । l) तुस. ।

अनुदात्ता(त-अ)र्थ- -थम् पावा ३,
१, ३४; ८, १, १८.
अनुदात्तो(त-उ)दय- -ये ऋप्रा ३,
१२.
अनुदात्तोपदेश^० पा ६, ४, ३७.
अनुदात्तो(त-उ)पसर्गा^०- -र्गे शुप्रा
५, १६.
२अन्-उदित^०- -ते काश्रौ ४, १५, १;
७, ४, १७; आपश्रौ १२, १३,
११-१३; वौश्रौ ९, २० : १७;
२१, १७ : १८; २५, १६ : ३;
भाश्रौ ५, ६, ६; वाश्रौ १, ४, २, ९;
५, २, ८; वैश्रौ १५, १५ : ३;
हिश्रौ ८, ३, ५७; ५८; वैताश्रौ
५, ११; शांश्रु ६, २, ४; वीश्रु ३, ४,
३४; गोश्रु १, १, २८; द्राश्रु १, ५,
९; अष २३, ७, ४.
अनुदित-होम^०- -मे भाश्रौ ९,
११, ४.
अनुदितहोमिन्- -मी आश्रौ २,
२, ८.
२अन्-उदित, ता^०- -तस्य वैश्रु ३, २३;
१२; -ताम् अषा ३, ४, ११.
अनु√दिश, अनुदिशति शाश्रौ.
अनु-दिश्य काश्रौ २५, ९, १; आपश्रौ
१०, २६, १५; कौश्रु ३, १४, ३;
शांश्रु ४, १, ४; ७; वीपि २,
११, २.
अनु-दि(ह्र>)ष्टा^०- -ष्टा वौश्रौ ६,
८ : ९; -ष्टानाम् आपश्रौ १०,
१९, ५; -ष्टाम् भाश्रौ १०, १२,
१३; हिश्रौ १०, ३, १०; -ष्टासु

आश्रौ १८, ३, १०; वैश्रौ १२,
१४ : ७; हिश्रौ १३, १, ३३;
-ष्टायै वैश्रौ १२, १४ : ८.
१अनु-देश^०- -शाः शुप्रा २, ७;
पा १, ३, १०; पावा १, १, ५६;
५७; २, ५१; ३, १, ८७; -शस्य
पावा १, ३, १०; -शात् माश्रौ
१, ८, ६, ११; वाश्रौ १, ६, ७, २९;
पावा १, १, ५९; -शे आश्रौ २,
१, ६; वौश्रौ २०, १७ : २६;
पावा ६, ३, ६७.
आनुदेशिक- -कस्य पावा
१, १, ५६.
अनुदेशा(श-आ)दि- -दि काश्रौ
१८, ६, १४.
अनु-देशन^०- -नम् आपश्रौ १०, २७,
४; वीश्रु ३, १२, ४; ८; अप्राय
२, ९.
अनुदेशनीय- -यम् भाश्रु ३,
१७ : १०.
अनु-देश्य^०- -इयः जैश्रौ १ : ३; ९;
-इयम् आपश्रु १, २, २२; हिध
१, १, ५५; -इयेन जैश्रौ १ : ७.
अनुदेश्य-प्रतिगृही(त>) ता^०-
-तायै वौश्रौ २४, ३१ : ७.
अनु-दिश^०- -शम् वौश्रौ २, १४ : ८;
९, ३ : ३३; १० : ३०; १०, ५ :
१८; ६ : १३; १५; ११, २ : २६;
१२, ७ : १५; १५, ३ : १६;
१९ : ९; १६, २० : १२; १७,
२९; ५; १८, ४८ : २६; ४९ : ७;
१०; १४; १८; २०, १३ : ५;

२२, ७ : १०; २४, २७ : ७; २५,
३४ : १; वैश्रौ १७, ८ : ६.
अन्-उदुत्त, ता^०- -सयोः माश्रौ ४, २,
३२; ३, ३३; -से माश्रौ ४, २,
२^१; ६.
अनु√दृभ्, अनुदभेत् वाधूश्रौ ३,
४१ : ६.
अनु√दृष्, अनु ... दृदको वृदे ६,
४०^१.
अनु-दर्शयित्वा वौश्रौ ९, १९ : ३८.
१अनु-दृश्य वौश्रौ १, ११ : ३६;
ऋप्रा ७, ९.
१अनु-दृष्टु^०- -ष्टे आपश्रौ २०,
१, १७; वौश्रौ १५, ३ : ७; हिश्रौ
१४, १, १२.
अनुदृष्टि^०- (> आनुदृष्टेय- , आनु-
दृष्टिनेय- , पा.) यथाक्रमम् पाग
४, १, १२३; १२६.
अनु√दृ> अनु-दा(र>)ल्य माश्रौ
४, २, २.
२अनु-देश^०- , > शिन्- > इय
(शि-अ)मिशस्त^०- -स्तस्य
आश्रु १, २३, २०.
अनु-दैवत^०- -तम् आश्रौ ६, ५-६, ९;
जैश्रु १, ९ : ४.
अन्-उदिष्ट- -ष्टाः वाध १४, ४४.
अन्-उद्धरत्- -तम् वौश्रौ १८, ७ : ५;
भाश्रौ ९, ११, १; -ते आपश्रौ
२२, १२, २०; वौश्रौ २३, १८ :
६; हिश्रौ १७, ५, २३.
अन्-उद्धरत्- -रन् निस् ६, १० :
२३.

a) विप. (आख्यात-) । बस. । b) विप. (सूर्य-) । तस. उप. < उद्√ह । c) सस. ।
d) विप. (वाच्- प्रभृ.) । तस. उप. < √वद् । e) विप. (गो-, दक्षिणा-), नाप. (देवता-विशेष-) ।
f) विप., भाप. । g) भाप. । h) नाप. । उप. ष्यत् प्र. । अर्थः ? । तु. टि. C. [शाश्रौ ५, १, १०] Gaastra
[जैश्रौ. पृ १] । i) विप. (गो-) । पाठः अर्थश्च ? । तु. संस्कृतुः टि. सूचिश्च । j) अस. वा. किवि. । k) विप. ।
तस. उप. < उद्√वप [छन्दे] । l) पाभे. पृ १६० टि. इ. । m) नाप. । गस. । n) व्यप. स्त्री. ।
अर्थः व्यु. च ? । ष्टिन्- इति शुभ्रादौ पाभे. । o) = स-देश- । प्रास. । p) विप. । तुस. प्य. = प्रतिषेधिन्-

अनु-उद्धृत, ता- -तम् शाश्रौ ३, १९,
९; आपश्रौ ९, ६, १६; ७, १०;
१३; बौश्रौ १४, २४ : २३; १०३;
१५३; २०; २५; २८; २४, २२ :
६; माश्रौ ९, ९, ४; १०, ७; माश्रौ
३, २, १४; १५; वैश्रौ २०, १२ :
३; हिश्रौ १५, २, २०; २७;
-ताभिः वाध ६, १५; बौध २,
१०, ३८.
अनुद्धृता (त-अ) भ्यस्तमय^a- -ये
काश्रौ २५, ३, १७.
अनु-उद्धृत-फलक^b- -कम् बौश्रौ ६,
२४ : १५.
अनु-उद्धृत्य काश्रौ ५, ६, १९; आपश्रौ
२४, ३, २८; हिश्रौ १५, २, १२;
३, २३.
अनु-उद्धृन्न- -न्नः अप ५०, ३, २;
७२, ३, १३.
अनु-उद्य^c- -द्यम् अप्रा ३, ४, १.
अनु-उद्यच्छत्- -च्छन्तः द्राश्रौ ३,
१, १०; लाश्रौ १, ९, ११; १०,
१५, १५.
अनु-उद्य(त् >)ती- -त्याम् कौस्
९३, ९.
अनु-उद्यमन- -ने पा ३, २, ९.
अनु✓दु, अनुद्ववति आश्रौ ८, १३,
१२; १३; अनुद्ववतात् बौश्रौ ६,
६ : ४; अनुद्ववेत् आश्रौ ६, १०,
१७; शाश्रौ ७, ६, ८; बौश्रौ १४,
२१ : २६; २१, १० : २८; माश्रौ
९, १२, १; हिश्रौ १५, २, २०;
२७; कप्र २, १०, २; अप्राय ५,
१; अनुद्ववेयाताम् माश्रौ ५, २,
८, ४३.
अनु-द्वुत- -तेन वैश्रौ ८, ३ : ४;
१०, १ : ६.

अनु-द्वुत्य- आश्रौ.
अनु-उद्धात- -ते आपश्रौ ९, ९, १;
बौश्रौ १४, २४ : २९; २३, ८ :
९; माश्रौ ९, ११, ७; वैश्रौ २०,
१६ : १; हिश्रौ १५, ३, १.
अनु-उद्धाप्य बौश्रौ १४, २४ : ३०.
अनु-द्वार^d- -रम् गोग ४, ७, १८;
द्राग ४, २, १३; अप १, ३४, ५.
अनु-उद्धासित- -तान् आपश्रौ ९,
१२, १; -तानि बौश्रौ २०, १२ :
७; ८; -ते आश्रौ ३, १३, ९.
अनु-उद्धास्य काश्रौ ५, ६, १५; वैश्रौ
२०, २४ : ५.
अनु-उद्धेगकर^e- -राः कप्र ३, ८, १३.
अनु-उद्धेजन^f- -नः वैग २, ४ : २.
अनु✓धन्व्, *अनु...दधन्वे आपश्रौ
१२, ८, ९; बौश्रौ १४, १२ :
३०; वाश्रौ ३, २, ५, १४; वैश्रौ
१५, ९ : १०; हिश्रौ ८, २, ३५.
अनु✓धा, अनुदधाति वाधूश्रौ ४,
७४ : १९; अनुदधीरन् लाश्रौ ४,
९, १४.
अनु...धिषीय बौश्रौ ८, १४ :
३८.
अनु✓धाष्(गतौ), *अनुधावति शाश्रौ
१२, २४, २; अप ३५, १, १६;
अनुधावन्ति अप ३५, २, ८;
अनुधावेत् आपध १, ६, ९; बौध
१, २, ३९; द्विध १, २, ३३.
अनु-धावत्- -वताम् सु २९, ३.
अनु✓ध्यै, अनुध्यायति बौश्रौ १४,
३ : ७; अन्वध्यायत् या २,
१२; अनुध्यायेत् आपश्रौ १३, ६,
३; वैताश्रौ ११, ६; अनुध्यायाम
या ६, ८.
अनुध्यास्यति बौश्रौ २५, ७ : ९.

अनु-ध्यात- -तम् बौश्रौ २४, १३ :
३.
अनु✓ध्वंस् > अनु-ध्वंसयत्- -यन्
माश्रौ ३, ४, ९.
अनु-नक्षत्र^d- -त्रम् जैग १, ९ : ४.
अनु✓नद् > अनु-नाद- -दः ऋप्रा
१४, १८; १९.
अनु✓नश्(व्याती), अनु...भानद् या
६, ८†.
अनु-नामन्^d- -म जैग १, ९ : ४; २,
२ : ७; ३ : १२.
अनुनाश^f- (> भानुनाश्य- पा.)
पाग ४, २, ८०.
अनु-नासिक, का^g- -कः ऋप्रा १,
१४; ३६; ४, ८०; शुप्रा १, ७५;
तैप्रा ५, ३१; १५, १; ऋत २, २,
७; शौच १, ६७; ८३; २, ३५;
४, १२१; उस् ४, ८; शैशि १६०;
२८२; पाशि २७; याशि १,
२६; भाशि ८७; पा १, १, ८; ३, २;
६, १, १२६; ८, ३, २; ४, ४५;
५७; -कम् ऋप्रा १३, ३७; १४,
९; शुप्रा ३, १३०; ४, १४; ५३;
९४; तैप्रा ५, २६-२८; १०, ११;
२२, १४; शौच १, ५३; शैशि
७५; याशि १, २८; -कस्य शौच
१, ६९; पा ६, ४, १५; ४१; -का
शुप्रा ४, ४; -काः अप ४७, १,
१२; ३, ५; ऋप्रा ६, २९; शुप्रा
१, ८९; तैप्रा २, ३०; शौच १,
११; पाशि २४; -कात् ऋप्रा
६, ४१; पा ८, ३, ४; कान् ऋप्रा
१, ६३; -कानाम् ऋप्रा १३,
१५; १४, १३; शौच १, २७;
-कानि तैप्रा १५, ६; -काम्
आश्रौ १, २, १७; ऋप्रा ४, ७;

a) 'अनुद्धृते (आहवनीये सूर्यस्य) अभ्यस्तमयः' इति सप्त. । b) विप. । तस. उप. बस. । c) तस. उप. < ✓ वद् ।
d) अस. वा. क्तिवि. । e) विप. । तस. । f) अर्थः व्यु. च ? । g) विप., नाप. (वर्गस्थ-पञ्चमवर्ण-). प्रास. ।

शुप्रा ४, १०; -के ऋप्रा ९, १०;
 ११, ५१; तैप्रा १०, ११; पा ६,
 ४, १९; ८, ४, ४५; -केषु
 ऋप्रा ६, २९; -कौ निस् १,
 १२ : २०; शुप्रा ६, ३०.
 आनुनासिक्य- -क्यम् तैप्रा २,
 ५२^३; १७, १; आशि ४, ७.
 आनुनासिक्य-भय- -यात्
 ऋप्रा ११, ३.
 अनुनासिक^० पावा ८, २, ६.
 अनुनासिक-त्व- -त्वात् पावा ६, १,
 ६६; ७, १, १.
 अनुनासिक-दीर्घ^०- -त्व- -त्वम् शौच
 ४, ११९.
 अनुनासिक-द्विर्बचन-परसवर्ण-प्रति-
 वेध^०- -घः पाप्रावा ५, ४.
 अनुनासिक-पर^०- -त्वात् पावा
 ६, १, ६६; ७, १, १.
 अनुनासिक-प्रसङ्ग^०- -ङ्गः पावा ७,
 २, ८४.
 अनुनासिक-भेद^०- -दात् आशि
 ६, २.
 अनुनासिक-लोप^०- -पः पा ६, ४,
 ३७; पावा ६, ४, २२; ३७; -पात्
 पावा ६, ४, ४२.
 अनुनासिक-वचन^०- -नात् पावा १,
 ३, २.
 अनुनासिक-वत्- -वति शुप्रा ४,
 ५३.
 अनुनासिक-संज्ञा^०- -ज्ञायाम् पावा
 १, १, ८.
 अनुनासिका(क-अ)दि- -देः ऋप्रा
 ५, २६.
 अनुनासिका(क-अ)न्त- -न्तस्य पा
 ७, ४, ८५; -न्तात् अप्रा २,
 २, ३.

अनुनासिको(क-उ)दय- -ये ऋप्रा
 ११, ५०.
 अनुनासिको(क-उ)पध-त्व- -त्वात्
 शुप्रा ५, ४३; पावा ७, १, २५.
 अनुनासिको(क-उ)प(ध>)घा^०-
 -घाः ऋप्रा २, ६७.
 अनुनासिक्य^१- -क्याः याशि २, १.
 अनु-नि ✓कम्, अनुनिकामति^० आपश्रौ
 १०, २२, ११; वैश्रौ १२, १६ :
 १६; हिश्रौ ७, २, २४; अनु-
 निकामति^० वैश्रौ १६, २ : ८;
 अनुनिकामेत् वैश्रौ २१, ११ :
 २०.
 अनुनि-कमण- -णे वैश्रौ २१, ११ :
 १९.
 अनुनि-कान्त-> ^०न्त-तर- -रम्
 वैश्रौ २४, २४ : १३.
 अनु-नि ✓गद्, अनुनिगदति माश्रौ
 ५, २, ११, १४; वाश्रौ ३, ३, १,
 १९; अनुनिगदेत् गो १, २१.
 अनु नि ✓घा, अनुनिघापयेत् वैश्रौ
 २२, ३ : २८.
 अनुनि-धान- -नम् गोश्र १, ४, ७.
 अनुनि-धाय वैश्रौ २३, १७ : २५.
 अनुनि-धायम् वैश्रौ १४, १५ :
 २१.
 अनु-नि ✓नी, अनुनिनयेत् वैश्रौ
 २३, ३ : १२.
 अनु-नि ✓पद्, अनुनिपद्येते कौस् ६०,
 ३५.
 अनु-निर् ✓दिश, अनुनिर्विदेश वैश्रौ
 १८, २६ : १६.
 अनु-निर् ✓वप्, अनुनिर्वपति आपश्रौ
 ३, १५, १; ६; ५, २२, १; ६; २९,
 ९; १३, २४, ८; १२; १७, २२,
 ९; १८, १२, ४; २०, २३, २;

२२, ८, ४; वैश्रौ ३, ३ : ९;
 भाश्रौ ३, १३, ५; ५, १४, ३;
 २१, ७; माश्रौ १, ८, ५, २; २,
 ३, ६, १९; ५, २; ६, २, ६,
 ४; वाश्रौ २, २, ४, २४; वैश्रौ १,
 १६; १४; ४, ५ : १५; ९, १२; ३;
 हिश्रौ ३, ५, १७; ९, ६, १७;
 १२, ६, २९; १३, १, १०; ५, ३;
 कौस् ४८, ३; अनुनिरवपन् वैश्रौ
 १७, ४७ : ८; अनुनिर्वपेत्
 आपश्रौ ३, १५, ८; १६, १; ५;
 ८, १९, ६; वैश्रौ १३, २ : १०;
 ३३; ३; १७, ४७ : ९; २३, १; ११;
 १२; १६ : २५; १७ : २३; माश्रौ
 ३, १, ११; वैश्रौ १, १६ : ५;
 २० : ११; ४, ५ : १३; २०,
 ३ : ९; हिश्रौ ३, ६, ४; ७, २६;
 अनु...निर्वपयुः आश्रौ ६, १४,
 १५.
 अनुनिर्-वपण- -णे वैश्रौ २३, १६ :
 २४.
 अनुनिर्-वाप्य, प्या^०- -प्यः वैश्रौ
 १७, ४७ : २; -प्यम् आपश्रौ ३,
 १५, ९; वैश्रौ २६, २१ : ६;
 -प्या माश्रौ ५, १, १, १५;
 -प्याणाम् आपश्रौ ५, २२, ८;
 २९, ९; भाश्रौ ५, १, ९; -प्येषु
 मीस् १२, ३, ३.
 अनु-निष् ✓कम् अनुनिकामति
 वैश्रौ ६, १२ : १९^६; माश्रौ २,
 १, ३, ३^६; ४, ४, १३; आशि १,
 ६, ३ : ३३.
 अनु-निष् ✓पद् > अनुनिष्-पत्ति-
 -त्तिः मीस् ११, ३, ८.
 अनु-नि ✓हन् > अनुनि-घन्त-
 -घन्तः हिपि ५ : २.

a) षस. । b) दस. > षस. । c) बस. । d) मलो. कस. । e) विप. । बस. । f) विप. ।
 तत्रभववीयः यत् प्र. । g) वैप १, परि. च द्र. । h) विप., नाप. । गस. ।
 वैप४-प्र-२३

अनु√नी, अनुनयति भाग १, २२ : ७; अनुनयन्ति आपश्रौ ११, १७, १; १५, १, ६; १७, २०, ८; माश्रौ ११, १, ९, माश्रौ २, १, ३, ५०; २, ४, २६; वाश्रौ ३, ४, १, २२; वैश्रौ १४, १५ : ९; हिश्रौ ७, ८ : ८; २१; २३; १२, ६, १८; बौश्र १, ५, १; वैश्र ५, २ : १६; हिपि २ : ८; अनु...नयन्ति माश्रौ २, ४, २, ३०. अनुनेषि आश्रौ ३, ७, ११; ५, ३, २१; ७, ४, ७; शाश्रौ १८, ४, १; आपश्रौ ५, ३, १; बौश्रौ २, ६ : ३९; १८, १४ : ७; वाश्रौ १, १, ६, ६; अनुनेषथ > था ऋप्रा८, ३१. अनु-नय ^a - यम् अप १, ४२, ८. अनु√नृत्, अनुनृत्येयुः आम्रिग ३, ८, १ : २१; बौपि १, १४ : १९. अन्-उन्मत्त - त्तः वाध १०, १९. अन्-उपकरण ^b - णान् शंध २६२. अन्-उपकि (श्च >) ङ्चा ^c - ङ्चया हिग १, १२, १५. अन्-उपक्रान्त - न्तयोः हिश्रौ ७, १, ५; -न्ते मीस् ६, २, १५. अन्-उपक्षित - तम् काश्रौ ५, १३, ३१. अन्-उपक्षी (ण >) णा ^d - णाम् या ११, ११. अन्-उपगीत - तम् द्राश्रौ ३, ४, २१. अन्-उपघ्नत् - घ्नन् द्राश्रौ ३, १, २१; ५, १, २; लाश्रौ १, ९, २३;	२, ५, २; विध १८, ४२. अन्-उपचित-कर्मन् ^e - मणौ या १४, ७. अन्-उपछिन्न-प्रवण ^f - णम् हिपि १ : ३. अनु√पद्, अनुपठेयुः पाग २, १०, १२. अनु-पठित-(>) अनुपठित्- पा.) पाग ५, २, ८८. अनु√पत् (गती), अनुपतेव आग ३, ७, ७. अन्-उपत (स >) सा ^g - सानाम् काश्रौ २२, ३, २३. अनु-पति ^h - त्ति काश्रौ १२, २, २०. १ अनु-पथ ^b - (>) आनुपथ्य- पा.) पावाग ४, ३, ५८. २ अनु-पथ ^h - थस्य याशि १, ५६. १ अनु-पद ^h - पाग ४, २, ६०; पावाग ४, ३, ५८; -दम् लाश्रौ ७, ५, २३; ६, २१; निस् ८, १ : २२; अप्राय २, ५; चव्यू २ : २८. आनुपदिक- पा ४, २, ६०. आनुपद्य- पावाग ४, ३, ५८. अनुपद-सर्वाज्ञा (ज्ञ-अ) यानय ^h - -यम् पा ५, २, ९. अनुपद-स्तुब्ध ⁱ - ङ्घानि निस् ६, ७ : १०. अनुपदिन् - दी पा ५, २, ९०. अनुपदी (न >) ना - पा ५, २, ९. २ अनु-पद ⁱ - दी आपश्रौ १९, १८, ३; हिश्रौ २२, २, ४.	अन्-उपदस्त, स्ता ^d - स्तः आपमं २, १९, १४ ^२ - १६ ^३ ; आम्रिग ३, १, ३ : २४ ^३ ; २७; २८; ३१; ३२; २, ३ : १४ ^३ ; ४ : ३ ^३ ; ७; ८; भाग २, १२ : ११ ^३ ; १६ ^३ ; १३ : ३; ४; हिग २, १३, १ ^६ ; -स्ता कौस् ८८, ८ ^३ - १० ^३ . अन्-उपदस्य ^d - स्यम् शाश्रौ ४, ८, ६१. अन्-उपदस्यत् - स्यत् हिश्रौ ११, ७, ५०. अन्-उपदहत् - हन् गोग ३, ७, ७. अन्-उपदह्यमा (न >) ना - नाः हिश्रौ ५, ४, २४; ८, १, ५५. अन्-उपदासिन् ^d - सिनौ बौश्रौ १५, १; ६; ८; वाधूश्रौ ३, २२; २३; २६; -सी बौश्रौ २४, १४ : ३. अन्-उपदा (स >) सी ^d - सीनाम् वाश्रौ ३, ३, २, १३. अन्-उपदासु (क >) का ^m - काः माश्रौ १, ५, २, ११. अन्-उपदिष्ट - ष्टम् शाश्रौ १३, १, २. अन्-उपदेश ⁿ - शः पावा १, १, ६९; -शात् पावा १, १, ६९ ^३ ; -शे पा १, ४, ७०. अन्-उप(धा >) ध ^b - धः ऋप्रा ६, ९; शैशि ९४. अन्-उपधि ^o - धिम् लाश्रौ ७, ९, ९. अन्-उपनिगृह्णत् - ह्णन् बौश्रौ २१, १२ : १५; १६. अन्-उपनिनीय बौश्रौ २०, ९ : १०.
--	--	---

a) गस. उप. भाप. । b) विप. । बस. । c) विप. ([व्यक्ता-] वाच्-) । पाठः? । यनि. बस. इति मातृदत्तः, C. Old. Böht. [ZDMG ५२, ८३] । 'न उपकृष्टा- [अतिमन्थरोच्चारिता-]' इति कृत्वा अन्-उप-किञ्चना- (<उप√*किञ्च् [= कृष्] > -नया इति शोधः इति मतम् । d) विप. । तस. । e) पाठः? । सपा. निरु २, ४ अनुपचिति, कर्मणा इति पद-द्वयम् (तु. वैप ३) । f) विप. । तस. उप. बस. । g) अस. वा. क्वि. । h) अस. । i) विप. । प्रास. । j) वा. क्वि. । k) समाहारे द्वस. । l) विप. । उप. <√स्तुम् । m) वैप १, परि. च द. । n) तस. । o) तस. उप. <उप√धा ।

अन्-उपनिमज्जत्- -जन्तः कौट ५,
४,२^a.

अन्-उपनीत- -तम् वैगृ ७, २ : ४;
-ताः अप ४१, ३, ३; -तान्
बौपि २, ३, १२^b; -तानाम् बौपि
२, ३, ११; ३, ६, १; गौपि १, ४,
१२; -ते शंभ ३६०; -तौ हिध
१, १, ३०^c.

अन्-उपपत्ति- -त्तिः पाप्रवा १, ७;
पावा २, २, २९; ४, ३५; मीस्
१, २, ९; -तौ लाश्रौ १०, १, २.

अन्-उपपद्- -दात् पावा ३, २, १;
६; -दे पावा ३, १, ९२.

अनुपपद-त्व- -त्वात् आपशु ११, १;
हिशु ४, २.

अन्-उपपदा(द-अ)र्थ^d- -र्थः पावा
३, २, १७८.

अन्-उपपद्यमान, ना- -नायाम् निस्
१०, ५ : १८; या २, २; -नासु
लाश्रौ १०, ८, ५; -ने कौस्
१३८, ११.

अन्-उपपन्न, घ्ना- -न्नः पापवा १०;
पावा १, २, ६४; २, २, २९;
-न्नम् आश्रौ १२, ४, १२; बौश्रौ
२२, १९ : १४; पावा १, १, ४४;
५६; -न्ना लाश्रौ ६, २, ५.

अनुपपन्ना(ज-अ)र्थ^d- -र्थाः या १,
१५; १६.

अन्-उपमक्षत्- -क्षन्तौ^f आपश्रौ ८,
८, १५; १३, २१, १.

अन्-उपमज्जत्- -जन्तः द्राश्रौ ११,
४, १२; लाश्रौ ४, ४, १०;
-जन्तौ^f बौश्रौ ८, २० : १८;

वैश्रौ १६, २६ : ६; हिश्रौ १०,
५, २७.

अन्-उपमृज्य वैगृ १, ३ : १४.

अन्-उपयामगृहीत^b- -तः वाश्रौ ३,
२, २, १७^d.

अन्-उपया(म>)मा^d- -माम् बौश्रौ
२६, १५ : २३.

अन्-उपयुक्त- -क्तः बौश्रौ २०, ५ :
१९; -क्ताः बौश्रौ २१, ३ : २३.

अन्-उपयोग- -गात् काश्रौसं ३५ :
१५; -गे पावा १, ४, २९.

अन्-उपयोग्य^l- -न्यौ वैश्रौ २०,
३१ : ६.

अनु-परा(रा-आ)द्य (दि-अ)र्थ^h-
-र्थम् पावा १, ३, ७८.

अनु-परा/सिच् > अनुपरा-
सिच्य- -च्यम् हिश्रौ १५, २, ६.

अनु-परि/कृ (विक्षेपे) > अनुपरि-
कीर्यं बौश्रौ २२, २ : २६; बौपि
१, ८ : १९.

अनु-परि/क्लृप्, अनुपरिकल्पयते
आपश्रौ १०, ६, ६; भाश्रौ
१०, ४, ४; हिश्रौ १०, १, ३९.

अनु-परि/क्रम् > अनुपरि-क्रमण-
-णम् आश्रौ ६, ९, ४.

अनुपरि-क्रम्य वाश्रौ १, ७, २, ३०;
मागृ १, १०, ७.

अनुपरि-क्रान्त- -न्तम् वाध ३, ४५.

अनुपरि-क्रामत्- -मन् माश्रौ १, ७,
३, २९; ५, २, २, ५; वाश्रौ १, ६,
१, ३१; वैश्रौ ६, २ : ५; ७, ४ :

१; हिश्रौ २, १, १०; ४, १, ६४;
११, ७, ५९; १२, ३, १; १०^g; ६,

२२; १३, ३, ३६; -मन्तौ माश्रौ
२, २, ४, ८.

अनुपरि-क्रामम् आपश्रौ २, १३, १;
बौश्रौ १०, ४८ : २१; वैश्रौ १९,
६ : ५०; पागृ १, १६, १६.

अनु-परि/चर् > अनुपरि-चारम्
आपश्रौ १७, १०, ३; १३, ६;
२०, १४; बौश्रौ १०, ५१ : २;
वैश्रौ १९, ६ : १३३; हिश्रौ १२,
४, ८.

अनु-परि/णी > अनुपरि-णीय कौस्
५४, ८; ५५, ७; ६५, १०.

अनु-परिधि^k- -धि काश्रौ ३, १, १३.

अनु-परि/प्लु, अनुपरिप्लावयति
बौश्रौ १, ९ : ८; १७, ४१ : ९;
२४; हिश्रौ १, ६, ३१; ८, २,
३८; ३, ७.

अनुपरि-प्लाव्य आपश्रौ १, २४, ५;
बौपि १, ८ : १९; हिगृ १, १०, ७.

अनु-परि/मृज्, अनुपरिमाथिⁱ भाश्रौ
१, २६, ३; वैश्रौ ४, १० : ९;
हिश्रौ १, ६, ४८.

अनु-परि/या, अनुपरियायात्^l आगृ
३, १२, १५.

अनु-परि/लिख्, अनुपरिलिखति
भाश्रौ १०, १५, १०; माश्रौ २,
१, ३, ४१.

अनुपरि-लिख्य आपश्रौ १०, २३, ३;
हिश्रौ ७, २, २७.

अनु-परि-वि/षो अनुपरिविष्यति
वाश्रौ ३, ४, ४, १४.

अनु-परि/वृत्, अनुपरिवर्तन्ते
हिश्रौ १६, ६, ३४^m.

a) सपा. शाश्रौ ४, १५, ३ अनमञ्जिमज्जन्तः इति पाभे. । b) तु. हिपि १२:११, B च; वैतु. °तानाम्

इति मैसु. ? । c) सपा. आपध १, १, ३२ अनुपेतौ इति पाभे. । d) विप. । बस. । e) विप. । तस. उप. बस. ।

f) सप्र. °क्षन्तौ <> °जन्तौ इति पाभे. । g) वैप १, परि. च द्र. । h) सपा. बौश्रौ १६, ७ : ५ उपयाम-

गृहीतः इति पाभे. । i) विप. । तस. उप. <उप/युज् । j) द्वस. > बस. > बस. । k) अस. वा. किवि. ।

l) य-परे इ-लोपः (तु. WAG १, ५३ b) । m) सप्र. आपश्रौ २१, १९, १३ विपरियान्ति इति पाभे. ।

अनुपरिवर्तयते बौश्रौ १३, ३२ : १९; १७, ४९ : २६; १८, ९ : ३४; अनुपरिवर्तयाध्वे बौश्रौ ११, ७ : ३९; अनुपरिवर्तयेयुः वाश्रौ १, ४, ३, १८.	३, ९, ४; अनुपरीयुः हिश्रौ १५, ५, ३६.	अन्-उपवाद ^h - -दः माश्रौ ५, १, १०, ५२.
अनु-परिश्चित्- -शित् काश्रौ १७, २, ११.	अन्-उपरोध ^d - -धम् आपध २, ९, १२ ^o ; -धेन आपध २, ९, १०; २६, १; बौध २, ३, १६; हिध २, १, १२५; ५, १९६; मीस् १०, ८, ६४.	अन्-उपविशत्- -शन् आश्र ३, ७, १.
अनु-परि/विच्, ङच्, अनुपरि-विञ्चति माश्रौ १, ८, २, २२; २, २, ३, १९; वैश्रौ ६, १० : ८; ८, ७ : ११; हिश्रौ २, २, ४९; ४, २, ६०; ५, २५; भाश्र २, १ : १४.	अन्-उपरोधन ^f - -नम् शंघ १२.	अनु/पञ्, अनुपश्यति काश्र ४, २३; अनु (पश्य) अश्र १८, ४ [†] ; अन्वपश्यताम् वृदे ७, ६४; अनुपश्येत अश्र ५०, १, ५.
अनुपरि-षिच्य माश्रौ ७, ८, १६; ८, २२, ६.	अनु-पर्य(रि/अ)स्(क्षेपणे) > अनु-पर्य(रि-अ)स्य हिश्रौ ५, १, २८ ^f .	†अनु-पश्यमान- -नः आपश्रौ ९, ८, ६; बौश्रौ १३, ४३ : १२; हिश्रौ १२, ४, ४; १५, २, ३५; -नाः आपश्रौ १७, १३, २; हिश्रौ १२, ४, ४.
अनु-परि/सृ > अनुपरि-सरण ^b - -णम् बौश्रौ ४, ६ : २२.	अनु-पर्या(रि-आ)/वृत्, अनुपर्या-वर्तते बौश्रौ १६, २७ : १८.	अन्-उपसंगृह्य माश्रौ १, १८, ६.
अनु-परि/सृप् > अनुपरि-सर्पम् बौश्रौ १७, २१ : २.	अनु-पर्या(रि-आ)/सिच् > अनु-पर्या(रि-आ)सिच्य माश्रौ ८, ३, ३ ^f .	अन्-उपसन्तान- > [†] न-ऋगावान [†] - -नम् आश्रौ ८, २, २०.
अनु-परि/ह, अनुपरिहरेत् बौश्रौ २१, २५ : १३; १४.	अनु-पर्यु(रि/उ)क्ष् > अनुपर्यु- (रि-उ)क्ष्य गोश्र १, ३, १२; ८, २५; गौध २५, ५.	अन्-उपसन्न- -न्नाय या २, ३.
अनुपरि-हरण- -णे बौश्रौ २१, २५ : १३.	अनु-पर्यु(रि/ऊ)ह् (गतौ) > अनुप-र्यु(रि-ऊ)ह्य वैश्रौ १५, १० : ४.	अन्-उपसर्ग [†] - -र्गः आपश्रौ १९, २७, १३; हिश्रौ २२, ६, २३; -र्गम् पा ६, २, १५४; ८, १, ४४; पावा ३, १, ७; -र्गस्य पा ३, ३, ७५; पावा ३, २, १३५, ७, १, ६९; -र्गात् अश्र ३, ३, ९; पा १, ३, ४३; ७६; ३, १, ७१; १३८; ८, २, ५५; पावा १, १, २०; ३, १, १००; १३८; ८, ४, १६; -र्गो पा ३, १, १००; १४२; २, ३; ३, २४; ६१; ६७; पावा ३, १, १३५; ६, २, ४७.
अनुपरि-हारम् आपश्रौ १७, १, ५, ५, ५; ७; बौश्रौ १०, ३८ : १३; ४५ : २५; २९; माश्रौ २, २, २, ३०; वाश्रौ २, १, ७, १३; २, ४, १७; वैश्रौ १९, २ : ८; १९, ५ : २०; ६ : ७१; हिश्रौ १२, १, ४; ५; २, ३; ५.	अनुपर्ये(रि-आ/इ), अनुपर्येहि वाश्र ५, ७ [†] .	अन्-उपसर्ग-ग्रहण- -णम् पावा ३, १, १०६.
अनुपरि-हरण- -णे बौश्रौ २१, २५ : १३.	अन्-उपलक्षण ^f - -णम् मीस् ३, २, ३०.	अन्-उपसर्ग-त्व- -त्वात् पावा ८, ३, ६५.
अनुपरि-हारम् आपश्रौ १७, १, ५, ५, ५; ७; बौश्रौ १०, ३८ : १३; ४५ : २५; २९; माश्रौ २, २, २, ३०; वाश्रौ २, १, ७, १३; २, ४, १७; वैश्रौ १९, २ : ८; १९, ५ : २०; ६ : ७१; हिश्रौ १२, १, ४; ५; २, ३; ५.	अन्-उपलक्ष्य- -क्ष्यः अश्र १, १, ६.	अन्-उपसर्जन ^f - -नात् पा ४, १, १४.
अनुपरि-हारम् आपश्रौ १७, १, ५, ५, ५; ७; बौश्रौ १०, ३८ : १३; ४५ : २५; २९; माश्रौ २, २, २, ३०; वाश्रौ २, १, ७, १३; २, ४, १७; वैश्रौ १९, २ : ८; १९, ५ : २०; ६ : ७१; हिश्रौ १२, १, ४; ५; २, ३; ५.	अन्-उपलब्ध- -ब्धे मीस् १, १, ५.	अनुपसर्जन-ग्रहण- -णम् पावा ४,
अनुपरि-हारम् आपश्रौ १७, १, ५, ५, ५; ७; बौश्रौ १०, ३८ : १३; ४५ : २५; २९; माश्रौ २, २, २, ३०; वाश्रौ २, १, ७, १३; २, ४, १७; वैश्रौ १९, २ : ८; १९, ५ : २०; ६ : ७१; हिश्रौ १२, १, ४; ५; २, ३; ५.	अन्-उपलब्धि ^d - -ब्धिः तैप्रा २३, ७; पावा १, २, ४५.	
अनुपरि-हारम् आपश्रौ १७, १, ५, ५, ५; ७; बौश्रौ १०, ३८ : १३; ४५ : २५; २९; माश्रौ २, २, २, ३०; वाश्रौ २, १, ७, १३; २, ४, १७; वैश्रौ १९, २ : ८; १९, ५ : २०; ६ : ७१; हिश्रौ १२, १, ४; ५; २, ३; ५.	अन्-उपलभमान- -नेषु काश्रौ २५, १२, २६.	
अनुपरि-हारम् आपश्रौ १७, १, ५, ५, ५; ७; बौश्रौ १०, ३८ : १३; ४५ : २५; २९; माश्रौ २, २, २, ३०; वाश्रौ २, १, ७, १३; २, ४, १७; वैश्रौ १९, २ : ८; १९, ५ : २०; ६ : ७१; हिश्रौ १२, १, ४; ५; २, ३; ५.	अनु-प(रा >)ला(ला/अ)य् अनुपला(ला-अ)य्य वाधूश्रौ ३, ४४ : ४.	
अनुपरि-हारम् आपश्रौ १७, १, ५, ५, ५; ७; बौश्रौ १०, ३८ : १३; ४५ : २५; २९; माश्रौ २, २, २, ३०; वाश्रौ २, १, ७, १३; २, ४, १७; वैश्रौ १९, २ : ८; १९, ५ : २०; ६ : ७१; हिश्रौ १२, १, ४; ५; २, ३; ५.	अन्-उपलीढ- -ढे कौस् ३३, १२.	

a) अश्र. वा. क्वि. । उप. =परिवेष- । b) गस. क्वि. । उप. भाप. । c) सपा. मंत्रा १, ६, २८ अभिपर्येहि इति पाभे. । d) तस. उप. भाप. । e) सप्र. हिध २, १, १२७ उपरोधम् इति पाभे. । f) तस. । g) सप्र. अनुपर्यस्य <> अनुपर्यासिच्य इति पाभे. । h) विप. । बस. । i) समाहारे दस. वा. क्वि. । j) विप. । तस. वा बस. वा ।

१, १४.
 अनुपसर्जन-त्व- -त्वात् पावा ४, १, १४.
 अनुपसर्जना (न-ञ्) धिकार^० - रे पावा ४, १, १४.
 अनुपसर्जना(न-ञ्)र्थ^० - र्थम् पावा ७, १, १.
 अन्-उपसृष्ट, घा- -ष्टः निसू २, १२ : २८; -घाः निसू २, १२ : ३०.
 अन्-उपसृक्त- -तः विध १६, १८.
 अन्-उपस्तीर्णा- -र्णम् काठश्रौ ७६; -र्णे भाग्य २, २९ : ११; आपध २, २२, २३; हिध २, ५, १५८.
 अन्-उपस्तीर्णा (शा-ञ्) सन-शायिन्^० - र्थी आपध १, ३, ४; हिध १, १, ७६.
 अन्-उपसृणत्- -णन् वाश्रौ १, ३, ५, २.
 अन्-उपस्थ-कृत^० - तः आपध १, ६, १४; हिध १, २, ३७.
 अन्-उपस्थान^० - नम् शाश्रौ २, १३, ९; द्राश्रौ ५, ३, ४; लाश्रौ २, ७, ३.
 अन्-उपस्थाय शाश्रौ ३, २१, ७; आपधश्रौ ६, २५, २; काठश्रौ २१; वौश्रौ २०, २३ : ६; वैश्रौ २, १० : ६.
 अन्-उपस्थित- -तान् आश्रौ ५, ३, २०.

अनुपस्थिता(त-ञ्)मि^० - -मिः आश्रौ २, ५, ७; माश्रौ ६, ५, ५; माश्रौ १, ६, ३, १८; हिश्रौ ६, ७, ४.
 अनुपस्थिता(त-ञ्)र्थ^० - र्थम् पावा ६, १, १२८.
 अनु-पस्पशान-, 'पस्पशयमान-अनु' ✓स्पश द्र.
 अन्-उपस्पृशत्- -शन् काश्रौ २, २, १६; १६, २, १०; १८; १७, १, २३; आपधश्रौ ७, २३, १०; २७, १५; वाश्रौ १, १, ५, १७; वैताश्रौ ३, ११; गोश्रु ३, २, १९.
 अन्-उपस्पृश्य काश्रौ २, ८, ३; द्राश्रौ ३, ३, १५; लाश्रौ १, ११, ७; गोश्रु ३, २, ८; जैश्रु १, १६ : २.
 अन्-उपहत^० - तः कौसू ४३, १६; -तम्^० आम्रिग ३, ५, ५; १, वौपि १, ४ : १; हिपि १ : ३.
 अन्-उपहत्य वौध १, १०, १५.
 ?अन्-उपहित- -तम्^० वौश्रौ २५, ५ : २; हिश्रौ १०, १, २१.
 †अन्-उपहृत- -तः शाश्रौ ७, ६, ८^०; -तेन आपधश्रौ १२, २४, १४; वैश्रौ १५, ३१ : ११.
 ?अनुपह्वयेत्^१ हिश्रु १, १४, ४.
 अन्-उपह्वास्यमान- -नः शाश्रौ ७, ६, ७.
 अनु ✓पा(पाने) > पिब, अनुपिबति वाधूश्रौ २, १६ : १; १०; अनु-पिबेत् वाधूश्रौ २, १६ : ११; वौश्रु १, २, ३८.

अनु-पान-> अनुपानी(य>)या^१ -याः बृदे ५, ११०.
 अनु-पाय^० शाश्रौ ४, २१, १५.
 अन्-उपाकृत- -तम् वौश्रौ २६, ५ : २३; २९, ३ : १४; -तानाम् विध ३०, २; -ते आश्रौ ६, ९, १; शाश्रौ १३, २, १; वौश्रौ २६, २२ : ६.
 अन्-उपाख्य^१ - ह्ये पा ६, ३, ८०.
 अनु-पातक^० -> °किन्- -किनः विध ३६, ८; ४३, २५; -किनाम् विध ४४, ४.
 अन्-उपात्त- -त्तः या ७, २३.
 अन्-उपात्यय- -ये पा ३, ३, ३८.
 अन्-उपादान^० - ने पावा ३, १, ९२.
 अन्-उपादाय निसू ३, १ : १०; ११.
 अन्-उपानत्क^० - त्कस्य काश्रौ १५, ८, २६.
 †अन्-उपाय^० -यात् निसू २, ८ : ३१; ८, १ : २३.
 २अन्-उपाय^० -यम् द्राश्रौ २, २, ३०.
 अनु-पाल-> ✓अनुपालि, अनु-पालयेत् कप्र ३, ६, १३; गौध ९, ६७.
 अनुपालयत्- -यन्तः जैश्रु १, १५ : २.
 †अनुपालयन्ती- -न्ती आम्रिग ३, ५, ६ : १४; वौपि १, ५ : २.

- a) पस. । b) विप. । तस. > कस. > उस. । c) विप. । तस. उप. बस. । उपस्थ- = आसन-विशेष- । d) तस. उप. = उपासना- । e) विप. । बस. । f) विप. (अवकाश- कव्याद्-) । तस. । g) सप्र. अनुपहतम् < > ?अनुपहितम् (भाष्यकृत 'हृत्' इति) इति पाभे. । h) सपा. शाश्रौ १३, ८ प्रत्युपहृतः इति पाभे. । i) पाठः? । तु. सपा. आपमं २, २२, १० भाग्य २, २७ : २ अनुह्वयः इति । j) विप. (ऋच्- [ऋ ६, ४७, १-४]) । तदर्हत्यर्थे ष > ईयः प्र. (तु. सा. [ऐवा ३, ३८]) । k) ह्यपि ईत्वाऽभावः उसं. (पा ६, ४, ६६) । l) = अनुमेय- । विप. । तस. उप. [= प्रत्यक्ष-] उस. । m) नाप. । प्रास. । अनुः सादस्यार्थे द्र. । n) तस. ।

अन्-उपालम्भ^a - भ्रमः या १, १४.
 अनु-पिण्ड^b - ण्डम् आपश्चौ १, ९,
 १४; भाश्चौ १, ९, ७; हिश्चौ २,
 ७, ४४; आम्निष्ट ३, १, ३ : ११;
 हिष्ट २, १२, ५.
 अनु/पिष् > अनु-पिष्य काश्चौ
 २५, १, १५.
 अनु-पुरुष^c - पा ६, २, १९०.
 अनु/पुष्, ऋणु (पुष्यास्म) शुभ्र ३,
 ७०.
 अनु-पोषण - णात् मीसू ८, १, ९.
 अनु-पूर्व, वा^d - वः आपश्चौ ७,
 ३, २; निस् ९, १२ : २५;
 -वम् शाश्चौ; -व्या द्राष्ट २,
 २, २५; -वाः काश्चौ ८, ८,
 १९; १६, १, ९; २७; आपश्चौ
 १७, ४, ७; २१, ३, ३; बौश्चौ २०,
 १२ : ५; वैश्चौ १५, ३१ : ९;
 हिश्चौ १२, २, २६; हिाि ४:७;
 -वांण आपश्चौ १, २४, ८; ५, ९,
 ३; ६, २६, ८; ११, ११, ४; १८,
 १४, ८; भाश्चौ १, २४, ८; २५,
 १२; २, ९, ५; ४, ३, २; ५, ४,
 १७; वैश्चौ ६, ७ : ६; १० : ३;
 हिश्चौ १, ६, ३८; २, २, ४५; ३,
 ३, १५; ६, १, २१; ७, ६, ४;
 -वांन् हिाि ११ : ३; -वैण
 माश्चौ ३, १, १८; द्राश्चौ ४, ४,
 १५; लाश्चौ २, ४, ८; जैष्ट १,
 १९ : ७; ३३; कप्र २, ८, ११;
 अपं ४ : ३१; -वाँ बौश्चौ १८,
 ५० : २६.
 आनुपूर्व - वम् बौश्चौ २९, १ :
 ३; कौसू ६३, १५; -वस्य या ६,
 १४; -वैण वाश्चौ ३, २, १, ५;

हिश्चौ २२, २, १४; अप ४८,
 १४७; कौसू ६३, १३; आज्यो
 ११, ७.
 आनुपूर्व-ता - ता बौश्चौ २५,
 १७ : १५.
 आनुपूर्व^e - व्यम् आश्चौ ५, ९,
 २३; ८, १३, ३४; शाश्चौ ७, २७,
 ३०; काश्चौ १, ५, १; बौश्चौ २,
 ६ : २; ७ : १७; १८; २४, १७ :
 ९; २३ : ४; २६, २९ : २; वाश्चौ
 १, १, १, १८; वैश्चौ १, १४ : ३;
 हिश्चौ २, ३, ७; लाश्चौ १०, ४,
 १३; निस् ३, १२ : ७; ६, ७ :
 २०; ८, ९ : ३३; ९, १ : ९; १०,
 १२ : २२; २५; आपध २, २२,
 ६; हिध २, ५, १३६; मीसू ५, १,
 १; ३, ३२; ४, २; ११, १, ५८;
 -व्यस्य मीसू ५, २, १४; -व्यात्
 अप ४६, ७, १; गौध ४, १८;
 तैप्रा २१, १२; -व्ये शाश्चौ १३,
 १, ३; काश्चौ २५, ११, १२; निस्
 ३, १२ : ५; मैअ २; पावा ८,
 १, १२; -व्येण शाश्चौ ४, २, ७;
 आपश्चौ ६, २, ५; १३, १२;
 १२, १८, ४; वैश्चौ १०, २ : ७;
 हिश्चौ १६, ८, २३; १७, १, २८;
 निस् ६, ४ : ७; कौष्ट १, ६, ४;
 गोष्ट ४, ७, ३५; अप्राय ३, ९;
 वाध ११, ६; शंध ६४; ३८२;
 वृदे १, १०५; ऋप्रा २, ७; तैप्रा
 १, १०; २, ४४; २२, १३; याशि
 १, २२; पावा २, २, ३४.
 आनुपूर्वा^f - वाम् वृदे २,
 १००; -व्या माश्चौ ५, २, १२,
 ३; माशि ११, २; आज्यो १,

१२१.
 आनुपूर्व-नियम^g - मः
 काश्चौ १, ५, ३.
 आनुपूर्व-भूयस्व^h - स्वात्
 काश्चौ १, ५, १५.
 आनुपूर्व-योगⁱ - गात्
 काश्चौ १, ५, १०; ६, ४; ९, ५,
 ११; १०, ३, ५; १५, ८, १२;
 १०, २४.
 आनुपूर्व-वचन^j - नम्
 पावा १, ४, १०१.
 आनुपूर्व-वत् - वताम् मीसू
 १०, ५, १.
 अनुपूर्व-ज^k - जौ काश्चौ १५, ३,
 १६.
 अनुपूर्व-तस (:) वैष्ट ५, ८ : ९.
 अनुपूर्व-शस् (:) आम्निष्ट २, ५, १;
 १४; कप्र ३, १, १७; अप ५२,
 १, ५; ५५, १, १; ६२, १, २;
 ६४, २, ९; ७०^l, २५, २; वाध
 २, ४८; शंध १०३; वृदे ५,
 १७३; ८, ४१; मैअ २२; माशि
 ९, १; आज्यो ९, ११^l; वैज्यो २;
 अनु/पृच्, अनुपृणक्ति बौश्चौ १५,
 ५ : ७.
 अनु/पृच्छ, प्रच्छ > अनु-पृष्ट - छे
 या १, ४; ५; ११.
 अनु-प्रश्न - शः गौध ५, ४२.
 अनु-पृष्ठ^m - ष्टम् बौश्चौ ४, ६ : ५४,
 १५, ५ : ७; २९ : २२; भाश्चौ
 ७, १४, ८; वैश्चौ १०, १४ : १२;
 हिश्चौ ४, ४, १२; निस् ७, ४ :
 १०; ५ : ४०; ८, २ : २०; ३ :
 १२; गोष्ट २, २, २; ८; ३; ११-
 द्राष्ट १, ३, १७; २, ३, ८.

a) तस. उप. भाप. । b) अस. वा. क्वि. । c) 'अन्वादिष्टः पुरुषः' इति प्रास. । d) विप. । प्रास. ।
 -वम् इति क्वि. । अभा. प्रभृ. अस. इति । e) भवे व्यञ् प्र. (पा ५, १, १२४) । f) तु. अभा. प्रभृ.;
 वैतु. PW. प्रभृ < व- इति । g) षस. । h) विप. । उस. । i) 'तानु' इति = 'तेऽनु' इति संधिरार्थः ।

१ अनु-पृ(ष्ठ्या >) ष्ट्य^१ - ष्ट्यम्
 आप्रथौ १२, १८, ७; वैश्रौ १५,
 २१:५; हिश्रौ ८, ५, ८; आपशु
 ८, १३; हिश्रु ३, १९.
 २ अनु-पृ(ष्ठ्य >) ष्ट्या^२ - ष्ट्याम् काश्रौ
 १६, ८, ४.
 अनु✓पृ, अनुप्रयेत् कप्र २, ६, २; शंघ
 ३०२.
 अन्-उपेत, ता^३ - तः आमिष्ट १, १, ३ :
 ४९; २, ६, ५ : ८; ३, १०,
 १ : ४; बौश्र २, ९, ११; बौपि
 ३, ५, २; भाग ३, १२ : २; १५ :
 १७; हिष्ट १, ६, ७; आपध २,
 १५, १८; हिध २, ३, ५२; लाश्रौ
 ८, २, १९; निसू ५, १० : ५;
 -तस्य भाग ३, १२ : १; आपध
 २, ९, ७; हिध २, १, १२२;
 -ता बौश्रौ ९, १ : २२; ५ : ३९;
 १३ : १४; -ताः आपध १, २,
 १; हिध १, १, ३४; -तान् हिपि
 १२:११; -ते लाश्रौ १०, १८, ८;
 -तेन आपध ३, ८, ३; बौध १, १,
 १९; -तौ आपध १, १, ३२^४.
 अन्-उपेतपूर्व^५ - वस्य आश्र १, २२,
 २३.
 अन्-उपेत्य काश्रौ ४, १२, १७; कौसू
 २२, ७.
 १ अनुपेय^६ - याः बौश्रौप्र ३ : १३.
 अन्-उपोत्त^७ - से आपश्रौ १२, २, ५;
 बौश्रौ ७, २ : १५; ७ : २१; वैश्रौ
 १५, २ : १३; हिश्रौ ८, १, २९.
 १ अनुपोऽङ्कत्^८ आपमं २, २२, ९;

भाग २, २७, २.
 १ अनुपौङ्कत्^९ हिष्ट १, १४, ४.
 अनु-प्र✓कम्प, अनुप्रकम्पयन्ति^१ बौश्रौ
 ७, १७ : १०; ३०; ८, ७ : १८;
 ८ : १५; १३ : २५; ११, ८ :
 २३; १२, १३ : १९; वैश्रौ १५,
 ३६ : ९; १६, ९ : ६; १७, १७ :
 ७; हिश्रौ १३, २, ३१; अनुप्रकम्प-
 येरन् बौश्रौ २१, २०:२८; २९;
 २२ : ५; ११; १२; २३ : ६.
 अनुप्र-कम्पन-नम् हिश्रौ ८, ८,
 ३९; ९, २, २७; -ने बौश्रौ २१,
 २० : २८; २२ : ११; २३ : ५.
 अनुप्र-कम्प्य आपश्रौ २, ३, २०; वैश्रौ
 १५, ३६ : १७.
 अनु-प्र✓कृ > किर, अनुप्रकिरति
 बौश्रौ ४, २ : २५; ९, १४ :
 १८; वैश्रौ १३, १७ : ११; हिश्रौ
 ४, १, ५८; २४, ६, १२; अनुप्र-
 किरन्ति आपश्रौ २०, २४, १४;
 हिश्रौ १४, ६, २५.
 अनुप्र-कारम् बौश्रौ १७, २४ : ४.
 अनुप्र-किरत् - रन् बौश्रौ १७, ३१:
 २०.
 अनुप्र-कीर्य बौश्रौ ९, १४ : १७;
 १६ : २; ३; वैश्रौ १०, ४ :
 ९; १३, १६ : १५.
 अनु-प्र✓क्रम, अनुप्रकामति आपश्रौ
 १८, १५, १; हिश्रौ ६, ४, १७;
 १३, ५, २४; अनुप्रकाम बौश्रौ
 १२, ९ : २७; हिष्ट १, २०, १०.
 अनु-प्र✓चर्, अनुप्रचरेत् अप्राय

४, १.
 अनु-प्र✓चल्, अनुप्रचालयेत् बौश्रौ
 ९, १८ : २४.
 अनु-प्र✓णी > अनुप्र-णीत- -तः
 अप्राय ६, १.
 अनु-प्र✓णुद्, अनुप्रणुदेत् कौसू ५६,
 १५.
 अनु-प्रति✓स्था > तिष्ठ, अनुप्रति-
 तिष्ठाम् गोष्ट ४, ६, ११^१.
 अनुप्रति-तिष्ठत् - छन्तम् निसू ९,
 ९ : ८.
 अनु✓प्रय्, अनुप्रथताम् बौश्रौ १४,
 १४ : ३२^१.
 १ अनुप्रदधौ^१ वाधूश्रौ ४, ७५ : ३.
 अनु-प्र✓दा(दाने), अनुप्रदीयते आशि
 ८, १३; १४.
 अनुप्र-दान^२ - नः शौच १, १२;
 -नम् अप्राय ६, ७; शंघ २५२;
 आपध २, २४, ८^१; बौध २,
 ६, ३६^१; हिध २, ५, १७३^१;
 ऋप्रा १३, १; तैप्रा २, ८; आशि
 ८, १२^१; -नात् तैप्रा २३, १.
 अनुप्रदान-तस् (:) पाशि २३.
 अनु-प्र✓पद्, अनुप्रपद्यते आपश्रौ १२,
 ७, ४; १५, ९, ११; बौश्रौ ७,
 १६ : ३८; वैश्रौ १५, ८ : ६;
 हिश्रौ १०, ४, १३; अनुप्रापद्यन्त
 वाधूश्रौ ४, २६ : २; अनुप्रपद्येत
 आपश्रौ ४, १०, ५; ५, १, १८;
 आपश्रौ १०, १२, १०; १२, २६,
 १४; हिश्रौ ८, ८, ९.
 अनुप्रपादीत् बौश्रौ ६, १७ : २२.

a) 'पृष्ठ्यायाम्' इति अस. वा. क्वि. (तु. भाष्यकृतः; वैतु. संस्कर्तुः [आपश्रौ.] पदसूच्यां विप. इति) ।

b) विप. (रज्जु-) । प्रास. । c) विप. । तस. । उप. = उपनीत- च प्राप्त- च । d) सप्र. हिध १, १, ३० अनुपनीतौ इति पाभे. । e) विप. । तस. । f) स्वरूपम् ? । तु. संस्कर्तुः टि. । g) तस. उप. < उप✓वप् । h) प्रकृतः पाठः सप्र. हिष्ट. °वौ इति च ? अनु वोऽङ्कत् इति शोभः सुवचः (तु. आपमं. भू. XXI) । i) सप्र. आपश्रौ १२, २८, १ अनुः कप्र. द्र. । j) पाठः ? । प्रदधौ (< ✓ध्वै) इति संस्कर्तुः टि. । k) भाप., नाप. (बाह्य-प्रयत्न-) ।

अनुप्र-पद्य आश्रौ ५, १९, ८; शांश्रौ ५, ६, ६; १४, १८.
अनुप्र-√भ्रू, अनुप्रभवीत आपश्रौ २४, १०, १७.
अनुप्र-√यच्छ्, अनुप्रयच्छन्ति बौश्रौ १४, १८ : २२१.
अनुप्र-√या > अनुप्र-याय आपश्रौ ९, १, १८; बौश्रौ २९, १० : ९२; भाश्रौ ९, २, १; वैश्रौ २०, २ : १०; हिश्रौ १५, १, १९.
अनुप्र-√युज्, अनुप्रयुज्यते पा ३, १, ४०; अनुप्रयुज्येरन् भाश्रौ १०, ७, १७.
अनुप्र-युञ्जान- नस्य हिध २, ५, ११४^१.
अनुप्र-योग- नः बौश्रौ २५, १ : १; बौध ३, १, १४; पा ३, ४, ४; ४६; पावा ३, १, ४०; -नस्य पा १, ३, ६३; पावा २, ४, १; -गे बौश्रौ २२, १६ : १८; २३.
अनुप्रयोग-वचन^१- नम् पावा ३, १, ४०.
अनुप्रयोगा(ग-अ) नुपपत्ति^१- न्तिः पावा २, २, २४.
अनुप्र-√रुह् > अनुप्र-रोह- -हात् मीस् ६, ५, ३६.
अनुप्र-√लिप् > अनुप्रलिप्य बौश्रौ २६, ३१ : ३.
अनुप्र-√वच्, अनुप्रवक्ष्यामि भाशि १.
अनुप्र-वचन- (पाग.) > चनीय^०- पा ५, १, १११; -यम् आगृ १, २२, ९; १२; -यस्य कौस् ४२, ९; -यान् काय ४१, १९; -येषु गोय ३, २, ४२; द्राय २,

५, ३४.
अनु-प्र-√वद्, अनुप्रवदति या १४, ३७; अनुप्रवदन्ति या १०, २०; १४, १; १०; ११.
अनु-प्र-√वप्, अनुप्रवपेरन् बौश्रौ २३, ११ : ३२; ३३.
अनुप्र-वपण- -णे बौश्रौ २३, ११ : ३२.
अनु-प्र-√वह् > अनुप्र-वोढुम् कौस् ५, १२^१.
अनु-प्र-√विध्, अनुप्रविध्द्येत् आपश्रौ १, १४, ४; वाधूश्रौ ४, ६९ : ५; वैश्रौ ३, ८ : १०; हिश्रौ १, ३, ५६.
अनु-प्र-√विश्, अनुप्रविशति हिश्रौ १०, २, ३१; अनुप्रविशेत् द्राश्रौ ४, ४, १७; १४, १, १७; लाश्रौ २, ४, १०; ५, ६, १; ९, ८, ६; अनु-प्रविशेयुः द्राश्रौ ३, १, ८; लाश्रौ १, ९, ८.
अनुप्र-विशत्- -शान् आपध २, २६, १८; हिध २, ५, २१३.
अनुप्र-विश्य वाध १२, ७; वैध १, ११, २.
अनुप्र-विष्ट- -ष्टः कौय ३, ५, २.
अनुप्र-वेश- -शात् वाध १९, ३८.
अनुप्र-वेशन- (> अनुप्रवेशनीय- पा.) पाग ५, १, १११.
अनु-प्र-√वृज्, अनुप्रवृज्यात् हिश्रौ ११, ३, १३.
अनु-प्र-√वृत्, अनुप्रवर्तते या १४, ५; अनुप्रवर्तेत् काश्रौसं २९ : ६; ८; अनुप्रवर्तेयाताम् काश्रौसं २९ : ४; अनुप्रवर्तेरन् काश्रौसं २८ : २५; २९ : ११.

अनु...प्रवर्तयन्ति आपश्रौ ११, १७, १; बौश्रौ ६, ३० : २०; १४, ३ : ६; वैश्रौ १४, १५ : ८; हिश्रौ ७, ८, ९.
अनुप्र-वृत्त- > ँत्त-स्व- -स्वात् आश्रौ ७, १, २०.
अनु-प्र-√वज् > अनुप्र-वज्य हिगृ २, १२, २.
अनु-प्र-√स्वप्, अनुप्रस्वपतात् बौश्रौ १४, २१ : ३३.
अनुप्रसर्पयेयुः आश्रौ ९, ३, १९.
अनुप्र-सर्पिन्- -र्पिषु मीस् ३, ५, ५३.
अनुप्र-सृसि^१- -सिभ्यः लाश्रौ ९, १, १९.
अनुप्र-सृष्य जैश्रौ ३ : ४.
अनु-प्र-√स्तृ, अनुप्रस्तृणाति कौस् ४८, २९.
अनु-प्र-√हु, अनुप्रहावयति भाश्रौ ११, १०, १५; हिश्रौ २४, ४, १०.
अनु-प्र-√ह, अनुप्रहरति शांश्रौ ४, १८, ५; काश्रौ ३, ६, ७; १६; ५, ९, २५; २७; ७, ५, १७; आपश्रौ; अनुप्रहरतः बौश्रौ ५, ८ : ३३; भाश्रौ १, ७, ४, ४८; अनुप्रहरन्ति बौश्रौ १६, ३ : १२; द्राश्रौ ४, ३, २; लाश्रौ २, ३, २; अनुप्रहर काश्रौ ३, ६, १३; ७, १२; ५, ९, २५; आपश्रौ ३, ७, ४; बौश्रौ १, १९ : २९; भाश्रौ ३, ६, ८; भाश्रौ १, ३, ४, २०; वाश्रौ १, ३, ६, १२; वैश्रौ ७, ६ : १२; हिश्रौ २, ४, २७; अनुप्रहरतात् वाधूश्रौ ३, ९८ : ३; अनुप्रहरत निस् ७, २ : १०; अनुप्रहरेत् आश्रौ;

a) सप्र. आपध २, २१, ६ अनूपसीदतः इति पाभे. ।

b) षस. ।

c) विप., नाप. ।

d) विप. (ऋत्विज्-) । उप. कर्तरि क्त्विच् प्र. (तु. भाष्यम्) ।

अनुप्रहरेयुः आश्रौ २, १९, ३०;
 द्राश्रौ ६, ३, २०; हिपि १०:५; ११.
 अनुप्रहार्षीः बौश्रौ ६, ११ : १७.
 अनुप्र-हरण- -णम् आपश्रौ १४, ७, ५;
 बौश्रौ २१, ५ : १८; हिश्रौ ९, ८,
 ३७; १३, १, २४; -णे बौश्रौ २०,
 १० : ५; १३ : ३०; १४ : १४;
 २१ : २४; २१, २ : २३; ३ :
 ३; २७; २२, १० : १४, २३.
 अनुप्रहरण-वर्जम् काश्रौ ५, ६, ५.
 अनुप्र-हरत्- -रन् माश्रौ ५, १, ९, १८.
 अनुप्र-हृत- -तम् शाश्रौ ६, १२, ६;
 वैश्रौ ७, ६ : १४; हिश्रौ ६, ३,
 १७; ४, १०; -तानि बौपि १,
 १३ : २; -तेषु द्राश्रौ ६, ३, १९;
 लाश्रौ २, ११, १३.
 अनुप्र-हृत्य आश्रौ २, ६, १४; शाश्रौ.
 अनुप्र-हियमाण- -णम् भाश्रौ ४,
 १८, ४.
 अनु-प्रा (प्र✓अन्>)ण, अनुप्राणिति
 शाश्रौ २, ९, ७; ६, ८, १,
 आपश्रौ १६, २३, २; बौश्रौ ७,
 ५ : ४३; १०, ३१ : ७; वैश्रौ
 १८, १७ : २१; माश्रौ १, ३,
 १, १७; हिश्रौ २, १, २८; ११,
 ७, २९; ऋणुप्राणन्तु काश्रौ ७,
 ७, १८; आपश्रौ १०, २४, १४;
 बौश्रौ ६, १४ : २१; भाश्रौ १०,
 १६, १२; माश्रौ २, १, ४, ५;
 वैश्रौ १२, १८ : ३; हिश्रौ ६,
 ३, २; ७, २, ४६; ऋणुप्रा-
 णिहि आपश्रौ १०, २४, १४;
 बौश्रौ ६, १४ : २१; भाश्रौ १०,
 १६, १२; वैश्रौ १२, १८ : ३;

हिश्रौ ६, ३, २; ७, २, ४६;
 ऋणुप्राणित पाश्रु १, १६, १०;
 अनुप्राणयात् आश्रौ ५, २, १;
 बौश्रौ १०, ३१ : ७; वैश्रौ १५,
 १२ : ९; कौश्रु १, १२, ४; १६,
 २; शाश्रु १, १९, ४; २४, २.
 अनुप्रा(प्र-अण>)णा^०- -णा गो १,
 १६.
 अनु-प्रा(प्र✓आ)प्, अनुप्रापय पाश्रु
 ३, ११, १०.
 अनुप्रा(प्र-आ)स- -साः या १, १६;
 -से शंघ ३०२; ३०३.
 अनुप्रा(प्र-आ)प्य या १४, ३.
 अनुप्रे(प्र-ई)प्सु- -प्सुः आश्रौ १०,
 २, २.
 ? अनुप्रायाय अप्राय ५, ३.
 अनु-प्रा (प्र✓अ)स् (क्षेपणे), अनुप्रा-
 स्यति काश्रौ ६, ६, २६; अनुप्रा-
 स्यन्ति माश्रौ ५, २, १२, २४.
 अनु-प्रे(प्र✓इ), ऋणुप्रयन्ति कौस्
 २२, १३.
 अनु-प्रे(प्र✓ई)क्ष्, अनुप्रेक्षेत द्राश्रौ
 १२, ३, ३; लाश्रौ ४, ११, ६.
 अनुप्रे(प्र-ई)क्षमाण- -णः बौश्रौ ७,
 २ : १९; वैश्रौ १५, ४ : ४.
 अनु-प्रो(प्र✓ऊ)ह् (वहने), अनुप्रोहति
 भाश्रौ १, २३, ७; अनुप्रोहेत्
 आपश्रौ १४, १९, ११^२.
 अनुप्रो(प्र-ऊ)ह्य आपश्रौ १, २१, ७.
 अनु✓प्लु>अनु-प्लाव्य आमिण् ३,
 ६, १ : २२.
 अनु✓बध्, न्ध्, अनुबध्नीयात् गोश्रु
 ३, ४, २१.
 ऋणुबध्न्ते हिश्रौ २१, ३, ४.

अनु-बद्ध, द्वा- -द्धः आपध १, ७,
 १४; हिध १, २, ७१; -द्वा
 वाश्रौ ३, ४, १, २७.
 अनुबद्ध-शिरः-पाद^b- -दस् कौस्
 ६४, २२; -देन कौस् २४, १०;
 ८१, २८.
 अनु-बध्य कौस् १८, १६.
 अनु, नू, बन्ध^c- -न्धः चाश्रु १६:
 ६; भास् २, १७; ३, ५^d; पावा
 १, १, २६; -न्धस्य पावा १, १,
 २०; ३, १, ९४.
 ऋणुबन्ध- -न्धः पावा १, ३,
 ११.
 अनुबन्ध-करण- -णम् पावा २,
 ४, ४९; ३, १, ५.
 अनुबन्धकरण-सामर्थ्य-
 -र्थ्यात् पावा ६, ४, १४३.
 अनुबन्धकरणा (ण-अ)र्थ-
 -र्थः पापवा १६.
 अनुबन्ध-भिन्न- -भेषु पावा ३,
 १, ९४.
 अनुबन्ध-लक्षण^०- -णे पावा ६,
 १, २००.
 अनुबन्ध-लोप^f- -पे पावा १, १,
 ४; ३, ९.
 अनुबन्ध-संकर^f- -रः पापवा १,
 ६.
 अनुबन्धा (न्ध-आ)ज्ञापित-स्व-
 -त्वात् पावा १, ३, ३.
 अनुबन्धा (न्ध-आ)सञ्जाना (न-
 अ)र्थ- -र्थम् पावा ३, १, १३४.
 अनुबन्धा (न्ध-अ)स्थानिवत्त्व^f-
 -त्वस्य पावा ३, १, ८३.
 अनु, नू, बन्ध्य, न्ध्या^f- -न्ध्यः

a) नाप. (गो-)। गस. अजन्तम् (तु. भै ४, २, ५; वैतु. संस्कृतुः टि.)। b) विप. (चर्मन्-)। बस.
 उप. द्रस.। c) भाप., नाप.। गस. उप. भावे कर्तरि च कृत्। d) ऋ इति पाठः। e) विप. (स्वर-)।
 बस.। f) षस.। g) विप. (पशु-, वशा- प्रभृ.), नाप. (पशुयाग-विशेष- [वाधुश्रौ ४, ३२, ५])। वैप १ द्र.।
 बौश्रौ. (कचित्), वाश्रौ. च ँ इति पाठः।

बौध्रौ २५, ३३ : ३; द्राध्रौ २, २, ४५; लाध्रौ १६, ४२; -न्ध्यम् बौध्रौ १८, २१ : १५; २६, ३२ : १९; वाध्रौ ४, ३२ : २५; -न्ध्यस्य शाध्रौ १५, ४, १२; काध्रौ १८, ६, १९; बौध्रौ १७, १५ : २; १८, २२ : ६; ७; २५ : १८; ३७ : १७; ४८ : ८; २१, २५ : १९; २६ : १३; १४; २४, ३९ : ९; २५, १३ : १२; वाध्रौ ४, १५ : १७; ३९ : १४; ९७ : ८; -न्ध्या आध्रौ ६, १८, ७; ९, २, ७; ११; २१; २४; शाध्रौ ८, १२, ५; १८, २४, १८; काध्रौ १०, ९, १३; २२, ८, ३; काध्रौसं २८ : १६; २०; २२; २४; आपध्रौ १४, १९, ३; २२, ८, ४; १०; १४; ९, २; बौध्रौ १६, १२ : ३; माध्रौ ५, १, ६, ३२; हिध्रौ ९, ४, ४५; १७, ३, २७; ३१; ३३; ३४; -न्ध्याः काध्रौ १३, ४, ४; २०, ८, २३; २१, १, १६; २२, ७, २०; आपध्रौ १३, २३, १०; १५; २०, २२, १०; २४, १५; बौध्रौ २३, १४ : ३; वाध्रौ ३, ४, ५, १८; हिध्रौ १४, ५, ९; ६, १२; -न्ध्याम् काध्रौसं २८ : ८; आपध्रौ १३, २३, ६; १८, २०, ४; २२, ३, १०; माध्रौ २, ५, ५, ७; ५, २, १२, ४५; वैध्रौ १६, २७ : १२; हिध्रौ १३, ६, ४५; १७, १, ४८; -न्ध्यायाः आध्रौ ४, १२, ७; ९, २, १९; शाध्रौ ५, १४, २; ८, १२, ९; ९, २७, ४; १४, २, १४; २१; ३, १९; ५, ७; ६, ३; ७, ५; ८, ६; ९, ३; १३, २; ९; ४०, १७; काध्रौसं

२८ : ८; ११; आपध्रौ १२, ३, ३; ४; १३, २३, १७; २४, ८; १०; १४, ७, १८; माध्रौ ५, २, १२, ३४; ६, २, ६, २१; वाध्रौ ३, २, ६, ५५; वैध्रौ १२, १३ : १८; १६, २७ : १३; २८ : २; हिध्रौ ७, १, ७०; ९, ६, १२; १७; १९; २३; १५, ५, १७; १७, १, ४९; -न्ध्यायाम् शाध्रौ ८, १०, १; १२, १०; १३, ३, ५; काध्रौ २२, ९, ५; आपध्रौ १३, २४, ६; २२, १०, १; माध्रौ १०, १४, ४; वाध्रौ ३, ३, ४, ४२; हिध्रौ १७, ४, १७; वैताध्रौ २४, १०; -न्ध्यायै शाध्रौ १८, २४, २४; काध्रौ २५, १०, २; माध्रौ २, ४, ५, २०; ५, ५, ५; -न्ध्ये आध्रौ ६, १४, १५; -न्धयेन बौध्रौ १८, २२ : ८; -न्ध्येषु जैध्रौ २५ : ४. अनु, न्, बन्ध्य-वपा- -पायाम् द्राध्रौ ११, ४, १९; लाध्रौ ४, ४, १८; ८, ७, ८; ८, १४. अनुबन्ध्यवपा-होमा (म-अ)-न्त- -न्ते काध्रौ २२, ५, १९; ६, १३. अनुबन्ध्य-शेष- -वम् लाध्रौ ८, ८, १५. अनुबन्ध्या (न्ध्य-अ)न्त- -न्ते काध्रौ २२, ६, १५. अनुबन्ध्या-प्रकरण- -णात् काध्रौ २५, ११, २०. अनुबन्ध्या-वपा- -पायाम् आपध्रौ १३, ७, १५; २३, १६; १४, ७, १२; १७, २३, १०; २२, १७, ५; वैध्रौ १६, ८ : ३; हिध्रौ ९, ८, ४३; १०, ४, ७८; ५, ४४; १२,

७, १०; १७, ४, १७; ६, ४३. अनुबन्ध्यावपा (पा-अ)न्त- -न्तम् वैध्रौ १२, ७ : ८. अनुबन्ध्यावपा-होमा (म-अ)न्त- -न्ते काध्रौ १३, ४, ५; २३; १५, ७, २७. अनुबन्ध्या-वर्जम् काध्रौ ६, १०, ८. अनुबन्ध्या-स्थान- -ने आध्रौ ६, १४, १९; आपध्रौ २२, ३, ११. अनु/बुध्, ण् अनुबुध्यन्ते आपध्रौ २४, ५, ४; अनु...बुध्यन्ते बौध्रौ १६, २६ : १६; अन्व-बुध्यत वृदे ६, ३६; अनुबुध्येत आपध्रौ ९, १८, १६; अनुबुध्येरन् हिध्रौ १५, ८, १५. अनुबोधयत् वृदे ४, ११५. अनु-बुध्य वाध्रौ २, १३ : ५. अनु-ब्राह्मण- -णम् आध्रौ ५, ९, २३; १५, २३; द्राध्रौ ६, ३, ३; लाध्रौ २, १०, २४; लुस् १, ११ : ३१; निस् ८, ३ : १३; १४; २१; -णात् पा ४, २, ६२; -णै. आभिण् २, ४, ६ : ३६. अनुब्राह्मणिन्- पा ४, २, ६२; -णिनः आध्रौ २, ८, ११; जैध्रौ २६ : १०; वैताध्रौ १७, १२; -णिनाम् निस् २, १ : ३५. अनु-ब्रुवत्-, ण् ब्रुवाण- अनु/ब्रू द्र. अनु/ब्रू, अनुब्रूते शाध्रौ १५, १६, ६; वाध्रौ ४, २६ : १९; वैध्रौ ७, ६ : ९; शुभ्र १, ५; अनुभ्रुतः वैध्रौ ८, १२ : ८; अनुभ्रुवते हिध्रौ २, १, ५४; अनुभ्रुवे काण् ४१, १८; ण् अनुभ्रुवामि कौण् २, ४, ७; ९; ११; १३; १५; शाण् २, ७, ९-१७; अनुभ्रु(ः)वात् वाध्रौ ४,

२६:१८; अनुब्रवीतु बौश्री १०,
५१:२०॥; गोष्ट २, १०, ३४^०;
‡अनुब्रूहि काश्री ९, १, १०;
आपश्री ११, ६, १०^२; १२, ३,
१५; माश्री २, २, १६; ३, २,
१; आश्र १, २१, ४^०; शांश्र २, ५,
११^०; ७, ८^०; आपश्र ११, ८^०;
हिश्र १, ६, १०^०; या १, १५;
अनुब्रूहि काश्रीसं ४ : ८; अनु
(ब्रूहि) आपश्री ८, १५, ८^०;
अनुब्रवीत बौश्री २४, २८ : ५;
अनुब्रवीत वाधूश्री ४, ९० : ७;
१०; २१; ३०; अनुब्रूयात् आश्री;
अनुब्रूवीयाताम् वाधूश्री ४, ९० :
१२; अनुब्रूवीरन् वाधूश्री ४,
९० : १५; अनुब्रूयुः बौश्री २६,
११ : १६; शंघ ९.

अनु-ब्रुवत्-वतः आपश्री १२, ५,
५; माश्री २, ३, २, १४; हिश्री
८, १, ६२; -वति वैश्री १५,
३३ : १२; -वन् आश्री २, १७,
११; शांश्री ५, २, ३; ९, २४, ९;
बौश्री १४, २७ : १२; वाधूश्री
४, ९० : ३; शांश्र ४, १३, ४;
-वन्तः आपश्री १४, २२, १; वैश्री
२१, ८ : ४; हिश्री १५, ५, ३५;
लुश्र १, ११ : ८.

अनु-ब्रुवाण-णस्य आपश्री १४,
१३, १.

अनु/भाष्>अनु-भाष्य शंघ ४५५.

अनु-भित्ति^०-त्ति काश्री २६, २,
३१.

अनु/भू^०, अनुभवति शांश्री १५,

५, १३; हिश्री १६, १, ३; या
१३, १३^२; १४, १३; १४; पा
५, २, १०; अनुभवन्ति बौश्री
१६, ११ : १२; निश्र १, ६ :
२०; ४, ६ : ८; ५, ३ : २२;
८, ९ : २; ९, ३ : ११; २७;
अप ६८, १, १८; वैध १, ११,
८; ‡अन्वभवत् शांश्री १५, ५, ७;
आपश्री २०, ११, १०^०; बौश्री
१५, ३६ : २१; हिश्री १४, २,
२६; अप्राय ५, ६.

अनु-भव-वम् भाग २, ३१:१०^०.

अनु-भावित्^०-विनाम् आपश्र १,
१०, ६; हिश्र १, ३, ३५.

अनु-भू^०-भूः आपश्री २०, ११,
१०.

‡अनु-भूत्-तम् भाग २, ३१:१२;
-तानि निश्र ८, २ : ५१.

अनुभूत-दुःख^०-खानाम् विध
४४, १.

अनु-भूति^०-तीः बौश्री १५, ३६:
२०.

अनु-भूय अप १३, ५, ६; शंघ ३७५;
विध ४३, ४५; गौध ११, ३१;
अश्र ८, १^३; या १४, ७.

अनु/भू[=ह] ‡अनु...भरामि बौश्री
१, १९ : ३४; माश्री १, ३, ४,
२६; वाश्री १, ३, ६, १९.

अनु-भ(तु>)त्री-त्री ऋषा २,
४३^०.

अनु-मत,ता-, ण्ति-अनु/मन् द.
अन-म(तु>)ती-न्यौ हिश्री २१,
२, ६.

अनु/मद्, अनुमदन्ति या १३, ३७^०;
‡अनु...मदन्ति आपश्री २१,
२२, ३; वाश्री ३, २, ५, २०; हिश्री
१६, ७, १५; या १४, २४; शुषा
३, १५०; अनु (मदामसि) साश्र
४३२^०; अनु...मदतु बौश्री १८,
१७ : २४^०; अनुमदन्तु बौश्र २,
५, ७१^०; अनु...मदन्तु बौश्री ४,
९ : १६^०; अन्वमदन् शांश्री ८,
१६, १^०; अनु...अमदन् ऋषा
२, ४३^०; अनु (मदन्)आश्री ९,
५, १६; अनु (मदम्) बौश्री १८,
५ : १२.

अनु-मध्य-ध्यम् निश्र १०, ५ :
२१.

अनु/मन्, ‡अनु...मन्यासै^१
आश्री ४, १२, २; शांश्री ९, २७,
२; आमिश्र २, १, ५ : ७; या
११, ३०^०; अनु (मन्यासै)
आपश्री १५, १३, ६^०; काश्रीसं
४ : १०; बौश्री ९, १३ : २८;
२८, ३ : १८; माश्री ४, ४, १२;
५, २, ७, १२; वैश्री १३, १५ :
२०; आमिश्र २, २, १ : ५; वैश्र
१, १६ : ३; वृदे ४, ८८; शुश्र
४, ३; ‡अनुमन्यताम् आपश्री
२, १०, ४^०; ७, १५, ५^०; बौश्री
१, १४ : ९^०; माश्री २, १०, ५^०;
हिश्री १, ८, २१^०; ‡अनु...
मन्यताम् आश्री; बौश्री ६, १९ :
५^०; माश्री १२, १, ३^०; हिश्री
१०, ३, ३१^०; वैताश्री १३, १८^०;
‡अनु (मन्यताम्) आश्री ३, ३,

a) सपा. अनुब्रवीतु<>अनुब्रूहि इति पाभे. । b) तु. C. टि. । c) अश्र. वा. किवि. । d) उप-
सृष्टस्य धा. ज्ञान-प्रीत्यनुक्रमण-भवनेषु वृत्तिर् यथायथं द्र. । e) विप.>नाप. । f) नाप. (होम-विशेष-). गस.
उप. कर्मणि क्विप् । g) विप. । बस. । h) उप. क्तिन् प्र. । शिष्टं f टि. द्र. । i) पाभे. वैप १ परि. अनु...मन्यासै
मा ३४, ८ टि. द्र. । j) पाभे. वैप २, ३खं. अनुमन्यताम् तैत्रा ३, ७, ५, २ टि. द्र. । k) पाभे. वैप १ परि. अनु-
...मन्यताम् मा ५, ६ टि. द्र. ।

१^३; शांश्रौ ५, १७, २^३; आपश्रौ ११, १, ३; १५, १३, ५; काश्रौसं ४ : १०; बौश्रौ ९, १३ : २७; २८, ३ : १७; भाश्रौ ११, १३, ९; माश्रौ ४, ९; ५, २, ७, १२; ९, ७; १३, १^३; वैश्रौ १२, २२ : १६; १३, १५ : २०; हिश्रौ २४, ६, ३; वैताश्रौ १, १५; १३, १८; आमिष्ट २, २, १ : ५; वाष्ट १, २९; वैष्ट १, १६ : ३; द्राष्ट ३, ४, ३; कौसू ४५, १६; ५९, १९; वृदे ४, ८८; अत्र ७, २०; ऋनुमन्यन्ताम् बौश्रौ ७, ५ : २३; १४, ४ : ३९; माश्रौ २, ३, ३, ७; अप १३, २, ८; ऋनुमन्यस्व आपश्रौ; या ११, ३०; ऋनु(मन्यस्व) हिश्रौ २४, ६, ३; कप्र १, ९, ६.
 ऋनु...मंसतै बौश्रौ १५, ६ : ४; (अनु)मंसतै तैप्रा १६, २०; ऋनु...अमंसाताम्^१ शांश्रौ ८, १५, १३; बौश्रौ ९, १० : २१; द्राश्रौ १४, ३, ६; लाश्रौ ५, ७, ५; ऋनु...मंसाताम् बौश्रौ ९, १० : १८; भाश्रौ ११, १, १३; ऋन्वमंस्थाः आमिष्ट १, १, ४ : ६; ५, ४ : ३३; ६, ३ : १७; ५२; आपष्ट २, ८; बौष्ट १, ४, ३७; २, ५, ६१; हिष्ट १, ७, ६; गोष्ट १, ३, १२; जैष्ट १, ४ : २९; अनु...अमंसाताम् बौश्रौ ९, २ : १०.
 अनुमानयति माश्रौ १, ८, ३, ८; २, १, ३, ३६.

अनु-मत, ता-तः शांश्रौ; -तम् बौश्रौ ९, ६ : ४; -ता बौध २, २, ६२; -ताम् आश्रौ ४, १३, २; आपश्रौ २४, १२, ६; वाष्ट ९, ११; -ते आष्ट; -तेन वाश्रौ ३, ३, १, ९.
 अनुमता(त-अ)क्ष^२-क्षः बौश्रौ १२, १५ : १८.
 अनु-मति^३-तये शांश्रौ ४, २०, ६; ९, २७, १; १६, १०, ११; वैताश्रौ ३७, २०; ऋण्य ३, ५, ४; ४, ३, २६; शांष्ट २, १४, ४; आमिष्ट १, ७, २; ३; पाष्ट २, ९, २; १०, ९; जैष्ट १, ४; ३; २, ८; ८; ऋकौसू ४५, १६; ७; अप्राय ६, ९; अप २०, ४, २; बौध ३, ९, ५; -तिः आश्रौ ४, १२, १; २; १४, १५; शांश्रौ ९, २७, २; आपश्रौ १५, १३, ५; काश्रौसं ४ : १०; बौश्रौ ९, १३ : २७; १८, १७ : २६; २४, २० : ९; ११; २८, ३ : १७; भाश्रौ ११, १३, ९; माश्रौ ४, ४, १२; ५, २, ७, १२; वैश्रौ १३, १५ : २०; हिश्रौ २४, ६, ३; ऋण्य २, १, ५ : ५; २, १ : ५; माष्ट २, १०, ७; वाष्ट १, २९; वैष्ट १, १६ : ३; गोष्ट २, ३, २०; जैष्ट १, २० : २४; कौसू १, २९; ४५, १६; ऋण्य ३७, १६, १; ४८, १३९; वृदे १, १२९; २, ७७; ८, ७०; १२६; शुभ ४, ४; निघ ५, ५; या ११, २९^४; -तिभ्याम् माष्ट १, ११, २१;

२, २, २३; -तिम् बौश्रौ २४, २९ : १४; पाष्ट २, १३, २; आमिष्ट २, १, ५; ११; अत्र ५, ७; याशि १, २०; -तीः हिश्रौ १२, १, ६; -०ते आश्रौ ४, १२, २; शांश्रौ ९, २७, २; काश्रौ २३, ३, १; आपश्रौ १५, १३, ६; २२, १९, १; काश्रौसं ४ : ३; १०; बौश्रौ ९, १३ : २८; २८, ३ : १८; भाश्रौ ११, १३, १०; माश्रौ ४, ४, १२; ५, २, ७, १२; वैश्रौ १३, १५ : २०; हिश्रौ १७, ७, १०; २४, ६, ३; आमिष्ट १, १, १ : ४०; ५, १ : ३२; ४ : ३२; ६, १ : २३; २, १, ५ : ६; २, १ : ५; ३, २, १ : १०; आपष्ट २, ३; बौष्ट १, ३, २३; २, ५, ५९; भाष्ट १, ४ : १; वाष्ट १, २९; वैष्ट १, ९ : १२; १४ : ६; १६ : ३; हिष्ट १, २, ९; गोष्ट १, ३, २; जैष्ट १, ३ : ६; द्राष्ट १, २, १८; या ११, ३०; -तेः काश्रौसं ४ : ८; १०; वृदे ४, ८८; -त्या शांश्रौ १६, १०, १४; वैताश्रौ १७, ४; बौध २, २, ८; -त्याः या ११, १२; -त्यै आश्रौ ८, १४, ४; शांश्रौ ९, २८, २; काश्रौ १५, १, ७; ऋण्य ३ : ३; ४ : २; ५; ११; ६ : ११; १२; बौश्रौ ८, २२; ७; १२, ४ : १९; २८, ३ : १२; माश्रौ २, ५, ५, ११; वाश्रौ ३, ३, १, ३; २५; वैश्रौ १६, २७ : १५; हिश्रौ १३, ३, १३; कौष्ट ३, १०, ४; आमिष्ट २, १, ५ : ६;

a) पाभे. वैप १ परि. ऋनु...अमंसाताम् मा ३८, १३ टि. द्र. । b) विप. । बस. उप. = ग्लह. ।

c) यो नु मताक्षः इति पाठः ? यनि. योऽनु इति शोधः । d) वैप १, परि. च द्र. । e) पाभे. वैप २, ३खं. अनुमतये माक्ष १४, ९, ४, १८ टि. द्र. । f) सक्तृ णि रा इति पाठः ? । g) वृदेऽनु इति पाठः ? द्वे इति मध्यपाती व्यर्थ इति ।

८; १०; १२; काष्ठ ५४, १; वाग् १३, १; वैग् ३, ७ : ४^१; विध ६७, ३; ऋचा १५ : १; ४; भाशि ३५^१.

अनुमत्^१- -तम् आपश्रौ १८, ८, ११; १५; बौश्रौ १२, १ : ५; ९; हिश्रौ १३, ३, १३; १६^१; बृदे ७, ९३; -तस्य काश्रौ १५, १, ९; हिश्रौ १३, ३, १५; -ते बौश्रौ २६, १ : ५; -तेन आपश्रौ १८, ९, १; बौश्रौ १२, १ : २१; हिश्रौ १३, ३, २४.

अनुमती^०- -ती कौस् ७३, १२; -तीम् आम्रिग् २, २, २ : ५; कौस् २३, ४; ४२, ११; ४५, १०; ८२, ३८.

अनुमत-प्रभृति- -तिभिः बौश्रौ १८, ५ : ४; ६ : ५; हिश्रौ १३, ३, १२.

अनुमता (त-श्चा) दि^१- -दिभिः आपश्रौ १८, ८, १०.

अनुमतीय^०- -यम् अत्र ७, २०.

अनुमति-पूर्व^१- -र्वम् आपध १, २८, ५; हिध १, ७, ४१.

अनुमति-राका-सिनीवाली-कुहू^१- -हृभ्यः काश्रौ १८, ६, २०.

अनुमत्या (ति-श्चा) दि^१- -दि काश्रौसं ६ : १३.

अनु-मनन- -नात् या ११, २९.

!अनुमन्तः, 'मन्ती^१ माश्रौ ५, २, १३, १.

अनु-मन्तृ^१- -न्ता आपश्रौ १९, १२, ७^१; बौश्रौ १९, ३ : २१^१; हिश्रौ २३, २, १९^१; आपध २, २९, १^१; विध ५१, ७४; हिध २, ६, १४.

अनु-मन्यमा(न>)ना- -ना आम्रिग् २, १, ५ : ८^१.

अनु-मान्य माग् २, ४, ३; वैग् २, २ : १७; ३, १ : ६; शंघ २१.

अनु-मन्त्र^१- -न्त्रान् वाश्रौ १, १, ३, ५.

अनु√ मन्त्रि (<मन्त्र-), अनुमन्त्रयते आश्रौ; शांश्रौ १६, १३, १४^१; हिश्रौ ८, ७, १५^१; वैताश्रौ १३, ८^१; अनुमन्त्रयते वाश्रौ १, ७, २, ३३; अनुमन्त्रयन्ते वाश्रौ ३, २, ७, ५१; ८०; अनुमन्त्रये वाश्रौ ३, ४६ : ७; अन्वमन्त्रयत् बृदे ५, १२८; ऋचानुमन्त्रयेत आश्रौ; शांश्रौ १, २, ४^१, गौध २५, ७^१; अनुमन्त्रयीत कौग् १, १६, १८^१; अनुमन्त्रयेत् बौश्रौ; अनु-मन्त्रयेरन् आश्रौ.

१अनु-मन्त्रण^१- -णम् आश्रौ; -णे बौश्रौ; -णेन आपश्रौ.

अनुमन्त्रणीय- -यम् कप्र ३, ९, १९.

२अनु-मन्त्रण^१- -णः शांश्रौ ७, २, १५; बौश्रौ ३, २८ : १८; वैश्रौ

१५, ३१ : १०; -णम् बौध ३, २, ६; -णाः हिश्रौ ६, ४, ४१; ४२; -णैः वैश्रौ ८, ६ : ७; १०, ११ : ७^१.

अनु-मन्त्रित, ता- -तः माश्रौ ५, २, १५, १३; -तम् अप ३६, २९, १; -ता गोग् २, ३, १३; -तासु आम्र ४, ७, ११.

अनु-मन्त्र्य आश्रौ.

अनुमर्शम् अनु√मृश द्र.

अनु√मा (माने), अनुमीयन्ते आपध १, १२, १०; हिध १, ४, ११.

अनु-मान- -नम् लाश्रौ १०, २०, ११; पावा १, ४, १०८; मीस् १, ३, २; ३; ४, ३, १६; ५, १, ६; -नात् मीस् ५, १, २०; -नेन आपध १, ३, २६; हिध १, १, १०२; मीस् ११, १, २९.

अनुमानिक^१- -कम् मीस् १०, ८, १४; -कात् आपध १, ४, ८; हिध १, १, १२७.

अनुमानिकी- -की

बृदे १, ६०.

अनुमानिक-त्व- -त्वात्

काश्रौ १, ५, ६; मीस् १०, ५, ८.

अनुमान-व्यवस्थान^१- -नात् मीस् १, ३, १५.

अनुमेय- -यम् अप ३, १, १३.

अनु-माष- (>आनुमाष्य- पा.)

पावाग ४, ३, ५८.

a) विप. (पुरोडाश-) । सास्यदेवतीयः अण् प्र. । b) आनुमनम् इति पाठः ? यनि. शोधः । c) विप. (आहुति-, ऋच्-) । d) विप. । वस. । e) विप. (सृक्-) । छण् > ह्यः प्र. उसं. (पा ४, २, २९) । f) वस. वा. क्वि. । g) द्रस. । h) पाठः ? *अनु-मन्तृ-> -मन्तारः इति, -मन्तारौ इति च यथाकर्म शोश्रौ (तु. मूक्ते. -न्ता 1:] इति) । i) वैप १, परि. च द्र. । j) मन्ता इति पाठः ? यनि. शोधः । k) पाभे. वैप १ परि. अनुमन्त्र्य-मानः शौ ७, २१, ३ टि. द्र. । l) नाप. । प्रास. । m) पाठः ? *यन्ते इति शोधः (तु. भाष्यकृत, C. च) । n) *यन्त्रयते इति पाठः ? यनि. शोधः । o) इहृथनु^१ इति पाठः ? इहृथ(ति-श्च)नु^१ इति द्वि-पदः शोधः । p) सपा. *येत् <> *धीत् इति पाभेः । q) अभिमन्त्रयेत् इति क्वाचित्कः पाठः । r) भाप. । s) नाप. (मन्त्र-) । करणे स्युद् प्र. । t) *नै^१ इति पाठः ? यनि. शोधः । u) विप. । तत्रभनीयषु ठञ् प्र. (पावा ४, ३, ६०) । v) तुस. ।

अनु/मुद्, अनुमोदते आपश्रौ १३,
१,११; वैश्रौ १६,२ : २; हिश्रौ
९,१,१०; ३, २९. अन्वमोदन्त
या ९,६.

अनु-मोदमान- -नान् या ९,६.

अनु/मृ, अनुम्रियते बौश्रौ १४,२४ :
८; २४.

अनु/मृञ्, अनुमार्ष्टि काश्रौ २, ६,
२४; आपश्रौ १, १, ११; २, ८,
५; ३, ६, ८; बौश्रौ १, ४ :
१८; १८, १७ : १३; भाश्रौ १,
२,१०; १७, ८; २, ८, ६; ६,
१२,११; माश्रौ १, १, १, १४;
४१; ३, १३; २, ४, ७; २२;
वाश्रौ १, ६, ४, ५; वैश्रौ ३,
३ : ३; हिश्रौ १, २, ११; गोश्रु
१, ७, २१; कौश्रु १, ३७; ६७,
२५; गो २, २१; अनुमार्ष्टिम
गो २, २१; अनु-मार्ष्टु शंश्रौ
४,११, ६१.

अनुमृज्यात् बौश्रौ २०,१:५९.

अनुमृजेत् आश्रौ ६,९,२.

अनुमार्ष्टयेत् जैश्रु १,२ : ३.

अनु-मृज्य आपश्रौ १, ११, ९; वैश्रौ
३, ६ : ७; आम्रिगु १, १, १ :
२६; हिगु १,१,२३.

अनु-मृष्ट- -ष्टः वैश्रु २,४ : १.

अनु/मृश, अनुमृशतः माश्रौ २, २,
३,११.

अनु मर्शम् काश्रौ २५, १०,२.

अनु-मृश्य हिश्रौ २,३,१.

अनु-भेय- अनु/मा द्र.

अनु/यच्छ् (नियमने), अनुयच्छन्ति
या ९,१६; अनुयच्छस्व आपश्रौ
४,७, २३; भाश्रौ ४, १०, १-३;
हिश्रौ ६,२,१७३.

अनु/यञ्, अनुयजति आपश्रौ ८,

३,१०; १९,३,१; वैश्रौ ८, ७ :
८; १०,४:१३; हिश्रौ ५,१,३८;
अनुयजामि आपश्रौ २,२०,६१;
भाश्रौ २,१९,११; हिश्रौ २,५,४७.

अनुL,नू।याज- -जः बौश्रौ ३,३:

७; भाश्रौ ५,२१,५; माश्रौ ५,२,
११, ४१; -जम् भाश्रौ ८, २०,
१२; वैश्रौ १, २० : १०; ७,
४ : ७; ९,१० : ६; १०, २१ :
३; ५; १६, २५ : १०; हिश्रौ
२, ४, २; ३, ६, २५; ४, ५,
३९; ५,४,९३; ९,५,३५; २१,
२, ६२; वैश्रु ४,१ : १०; १३;

-जयोः शाश्रौ २, ५, २०;

आपश्रौ ५, २९, ५; भाश्रौ ५,

२१, ३; वाश्रौ १, ५, १, १४;

वैश्रौ १, २० : ९; हिश्रौ ३, ६,

२४; -जस्व बौश्रौ १५,३५:१०;

-जाः आश्रौ १,८, ३; २, १६,

१२; शाश्रौ ३, १३, २५; काश्रौ

२,७,१०; २६; ३,१,११; ५,८,

३५; ६,४,७; १०,७,९; आपश्रौ

८,९,१०; १४,३२,५१; १८,७,

१२; बौश्रौ २४,३ : १३; ३७ :

११; २५, १० : १४; २९, ५ :

१८१; माश्रौ ५,१,३,१०; २,८,

४२; वाधूश्रौ ४, ३ : १११; ७ :

६; १५ : ११; ५३३ : ९; ५६ : १;

४; ५८ : २; ६५३ : १; वैश्रौ ८,

६ : १४; हिश्रौ ७,२,४; ७; ९;

१५,८,३११; वौश्रु ४,९,२; वृदे

७, ७४; या ८, २२१; -जात्

आश्रौ २, १५, १०; काश्रौ ४,

११, ९; आपश्रौ ५, २८, ५;

भाश्रौ ५,१९, १८; वाश्रौ १, ५,

१,१५; वैश्रौ १, २० : २; हिश्रौ

३, ६, १८; ९, ६, ३१; -जान्

शाश्रौ १,१२,१३; ५,१९, २४;

९,१,११; आपश्रौ ३,५, १; ४,

१२,१; ७,२६,१२; ८, २, २०;

१७,१७,६; २४,१३,७; काठश्रौ

७०; बौश्रौ १, १९ : ११; ३,

२९ : २२; ४,१० : ११; ५,४ :

८; ९ : ८; ८, १६ : ६; १७,

१६ : ९; २४, ३ : १४; भाश्रौ

३,५,४; ७,२२,१; ८, ९, १२;

माश्रौ १,३,४,४; ७,२, १०; ८,

६, ४; वाधूश्रौ ४, १५ : ११;

३९ : २; १३; १५; वाश्रौ १,

१,४,१; ३,५, १८; ६, ७, २६;

वैश्रौ ७,४ : ६; १०,२१ : २; ४;

हिश्रौ २,४,१; ४,५, ३८; ५,१,

३१; ६,८,५; ७; १२, ५, ३६;

वैताश्रौ ४, ३; या ८, २२१;

-जानाम् आश्रौ २, १६, १३;

आपश्रौ ४,७, ११; ११, ७; ५,

२८,१७; ७,२६,११; बौश्रौ ३,

१९ : १; २०, १४ : ६; भाश्रौ

१४, ९, ४; १७, ४; ७,२१,११;

माश्रौ १,४,२, १४; ६, ५, १२;

वाश्रौ १,१,३, १९; ५, १, १२;

६,७,२३; वैश्रौ ७,४ : १०; १०,

२० : १४; हिश्रौ ३,६,२३; ४,

५, ४१; ६, २, १६; ३, १०२;

वैताश्रौ ३, ६; मीश्रु ५, २, १६;

-जाभ्याम् आश्रौ २, १९, ३०;

शाश्रौ २,५,२४; वैश्रौ ९, १० :

५; -जे काश्रौ ४,११,११; मीश्रु

१०, ४, ३६; -जेभ्यः बौश्रौ ५,

८ : १३; १५, ३५ : १०; २७,

१२ : २३; भाश्रौ ५,२१,२; ७,

२१,६; माश्रौ १,३,१, ३४; ७,

२,९; ८, ६, ३; ५, २, ८, ४१;

वैश्रौ ६,१ : २; ७,४ : ५; वाश्रौ

१,१,१,८२; -जेषु शांश्री १,१,
४०; ४,९,५; १५,१,२९; काश्री
३, २, २३; ६, ९, १०; आपश्री
२४, १३, ६; बौश्री ३, ३ : २;
२४, ३ : १४; वापूश्री ४, ११ :
२०; हिश्री ६, ३, १०; २१, २,
६०; अप्राय ३, ३; -जैः आश्री
१,८,१; ३,६,११; काश्री ३,५,
५; आपश्री ९,१२,१; ११,२०,
२; बौश्री १७,२२ : ११; ३७ :
७; जैश्री २० : १^२; हिश्री १३,
२,३४; -जौ शांश्री ३, १७, ७;
८,११,१२; काश्री १०, ८, ३२;
आपश्री ८,८,१०; १६,१७; १३,
२०, ७; काठश्री ३६; बौश्री ५,
१५ : २८; ८,२० : ६; माश्री ८,
२०, ११; माश्री १,७, ६, ४१;
वाश्री १,७,४, ५७; वैश्री ७,४ :
९; १६,२५ : ९; हिश्री ५, ४,
९३; ९,५,३४.

आनूयाजिक^क - -कात् बौश्री
२४, २८ : १२; २६, १ : ९.

आनु, नू। याजिकी - -कीम्
आपश्री ४, ११, ५; माश्री १, ३,
१, २; ४, १; ८, ६, १.

आनूयाजिकी-प्रभृति-
-ति माश्री २, ५, ४, १.

अनूयाज-प्रतिषेध^ब - -घः काश्री
७, ५, २६.

अनूयाजप्रतिषेधा (घ-अ)र्थ^क-
-थम् मीस् ४, १, ४३.

अनूयाज-प्रभृति- -ति शांश्री
१४, १०, २१; वाश्री १, १, ८३.

अनूयाज-प्रसव^ब - -वात् काश्री

२, २, २; -वेन शांश्री ४, ७, ३.

अनूयाज-प्रैष^ब - -षः शुभ्र ३,
२०७; -षाः काश्री १९, ७, ९;
वाश्री ३, २, ८, १४; शुभ्र २,
४६३; ३, १०३.

अनूयाज-याज्या^ब - -ज्याः शांश्री
१, १३, ४.

अनूयाज-वर्जस् आश्री १, ५, ४.

अनूयाज-समिध^ब - -मिधम्
वाश्री १, १, ५, २०; ३, ४, १; ५,
१५.

अनूयाजा (ज-आ) दि^द - -दि
आश्री ६, ११, ३; शांश्री १, १४,
२४; ८, ७, २१.

अनूयाजा (ज-अ) नुमन्त्रण^ब -
-णम् काश्री ३, ५, १४.

अनूयाजा (ज-अ) न्त, न्ता^द - -न्ता
शांश्री ८, ११, १०; वैताश्री २३,
२१; -न्ते काश्री ६, ९, १२; १५,
१०, २०; २०, ८, ९.

अनूयाजा (ज-अ) र्थ - -र्थम् काश्री
५, ४, २५.

अनूयाज-प्रभृति^क - -ति बौश्री
१९, ५ : २४; २४, ३ : १२.

अनूयाज-वत् मीस् ४, १, ३३.

अनूयाज-समिध - -मिध् आपश्री
१, ५, ११; माश्री १, ५, १०; हिश्री
१, २, ६४; -मिधम् आपश्री २,
१२, ६; ८, १४, १९; माश्री २, १२,
३; ३, ४, ६; ४, १७, १; वैश्री ७, ३ :
१३; ९, ६ : १४; १६, २७ : ६;
हिश्री २, १, ३; ६, ३, ८१; ७, २,
४; ९, ६, ३; आमिष्ट १, ६, ३ :
२; -मिधि हिश्री २, ८, ३८.

अनूयाजा (ज-आ) दि^द - -दि
हिश्री २१, २, ५९.

१ अनूयाजा (ज-अ) न्त^ब - -न्ते
आपश्री ७, २७, ४; वैश्री १०,
२१ : ११; १६, २८ : २; हिश्री
९, ४, ४५; ६, २२.

२ अनूयाजा (ज-अ) न्त^द - -न्तम्
हिश्री २२, ५, १३.

अनूयाजा (ज-अ) र्थ^क - -र्थम्
आपश्री १०, २१, ८; वैश्री १२,
१५ : ९; २०, २४ : ५; आमिष्ट १,
६, १ : २६; २७; -र्थ आपश्री
२, ९, ८; माश्री २, ९, २; वैश्री
५, ६ : ७; हिश्री १, ८, ६; २,
३, ४४; -र्थै वैश्री ७, ३ : ९.

अनु-यजुः-कृष्ट^द - -ष्टम् काश्री १७,
३, २५.

अनु-यव^क - (> आनुयव्य- पा.)
पावाग ४, ३, ५८.

अनु/या, अनुयाति विध २०, ४०;
अनु...याति लाश्री ८, ५, २२१;
अनुयान्ति आपश्री १८, ४, १७;
वैश्री १७, १३ : ७; हिश्री १३,
१, ५१; १४, १, ४६; †अनुया-
(त>)ता^ह बौश्री ३, ११ : २०;
हिश्री २, ७, ५.

अनुययुः या २, २४.

अनु-या^ह - -या शुभ्रा ५, २०.

अनु-यात् - -ताः वृष्ट ५, ६ : ५.

अनु-यात् - -तारः शंघ ४४०.

अनु-यायिन्^द - -यिनः कप्र ३, ३, ३;
-यिनी द्राश्री १०, २, २; लाश्री
३, १०, २.

अनुयायिनी - -नी अप ३५.

a) विप. (संप्रैष-) । तस्येदमीयष् ठक् प्र. । b) षस. । c) विप. । चस. । d) विप. । षस. ।

e) पंस. । f) 'यजुःकृष्टं [यजुषा यत्र कृष्टं कृतं स्यात् तं मार्गम्] अनुलक्ष्य' इति अस. (वैत. P.W. प्रभृ. कृष्टम् इति
पुथक् पदम्) । g) अस. । h) सपा. "अनुंवाता <> अनुवेता इति पाठे. । i) वैप १, परि. च द्र. &
j) विप. । गस. कर्तरि णिभिः प्र. ।

१, ५.
अनुया^१ माश्रौ १, ३, ५, २६^१.
अनुयाज- प्रथ. अनु^२यज् द्र.
अनु^३युञ्ज, अनुयु^४ (द्व>) क्वा सु
 १०, ३.
अनुयुञ्जति^५ आग्निष्ट १, १, २ :
 १८; अनुयुञ्जते बौश्रौ १५, ७ :
 २०; वाधुश्रौ ३, ७५ : १२.
अनुयोजयति कौसू ४४, ४; ५३,
 ७; अनुयोजयेत् कौसू १०६, ८;
 १३६, ९; अशां २०, ४; अप ३७,
 ८, १; ७०^३, ४, २.
अनुयुक्त- (> अनुयुक्तिन्- पा.)
 पाग ५, २, ८८.
अनुयुज्य आश्रौ ८, १४, १.
अनुयोग- -गः वृदे १, ३६; ५२;
 -गे पा ८, २, ९४.
अनुयोजित- -तम् अप २१, ६, ८;
 -तैः वैताश्रौ ५, १०.
अनुयूप^६- (> आनुयूप्य- पा.)
 पावाग ४, ३, ५८.
अनु^७रक्ष, अनुरक्षन्ति शाश्रौ १६,
 १०, १०.
अनु^८रज्, अज्, अनुरज्यते अप ६३,
 ५, २; अनुरज्येत अप ५, ५, २.
अनु-रक्त- -क्तम् विध ४२, १.
अनु-राग- -गाम् वृदे ७, १४८.
अनु-रज्जु^९- -ज्जु काश्रौ २१, ४, १.
अनु^{१०}रम्, अनु^{११}रभे शाश्रौ २,
 १२, ९^१; अनु^{१२}रभस्व शाश्रौ
 २, १२, १०; आपश्रौ ७, १७, २?^{१३}
 हिश्रौ ४, ३, ५५.
अनु^{१४}रम्, अनुरमते भाग्य १, ११ :

१५; अनुरमति शाश्रौ १७, १७,
 १२.
अनु-रहस- पा ५, ४, ८१.
अनु^{१५}राध, अनुराध्याम, अनु^{१६}
 (राध्याम) आपश्रौ ९, १४, १^{१७}.
अनु^{१८}राध, धा^१- -धा वैग्य २, ५:
 १; अप १, १, २; ३, १; ११, ३; १३,
 १; ५७, ४, १; फि १९; -धा:
 आपश्रौ ५, २७, ५; अप १, २, १;
 -धाभिः अप १, २९, १; ३९, ५^{१८};
 अशां ९, ५; -धाभ्यः अशां १२,
 ३; -धाम् अशां ३, ५; -धायै
 शांय १, २६, १, ५; -धासु माश्रौ
 १, ५, १, ७; ६, ५, ५; अशां १३,
 ३; अप १, ४, ४; ७, ७; १०, ३;
 ४४, ५; ४९, ५; -०धे अशां ३,
 ५; -धेषु आपश्रौ ५, ३, १४;
 हिश्रौ ३, २, १७; -धैः भाग्य १,
 २२ : २; अप १, ५, ४.
अनुराध- पा ४, ३, ३४.
अनु^{१९}रुध, अनुरुध्यते या १४, ६^{१९};
 अनु^{२०}(रुथसे) ऋप्रा २, ६८^{२०}.
अनु-रोद्ध्य- -व्यः बौध १, ५, ११२.
अनु-रोध- -धः मीसू १०, ३, २.
अनुरोधिन्- पा ३, २, १४२.
अनु-उरु-सु^{२१}- -सुभ्याम् शुप्रा ५, ३१.
अनु^{२२}रुह, अनुरोहते आपश्रौ १६,
 १५, ७; माश्रौ ३, ८, १; अप्राय
 ६, २; अनुरोहति वृदे ७, १३;
 अनुरोहसे वैश्रौ १८, १३ : १^{२२}.
अनु-रोह- -हः, -हम्, -हाय वैताश्रौ
 २६, ११.
अनुरूप, पा^{२३}- -पः आश्रौ; -पम्

शाश्रौ; -पा जुसू ३, ९ : २०^{२३};
 -पाः, -पात्, -पान् आश्रौ;
 -पाम् अप २४, १, ५; -पाय
 शाश्रौ ७, २१, ८; वैताश्रौ २०,
 १६; -पे आश्रौ; -पेण शाश्रौ
 ११, २, १३; उस् ८, २२;
 -पेभ्यः आश्रौ; -पेषु द्राश्रौ
 ९, ३, १५; लाश्रौ ३, ७, २.
अनुरूप-स्व- -स्वात् शाश्रौ ७, २५,
 १७; -स्वाय बौश्रौ १८, २९ : ११;
 हिश्रौ १२, ८, १०; आपश्रु १३, ८^{२४}.
अनुरूप-पर्यास^{२५}- -सौ क्षुस् २, ९ : २.
अनुरूपा (प-अ) मिश्रोम-सामन्^{२६}-
 -म जुसू ३, ९ : १७; -मा क्षुस् ३,
 ३ : १; ९ : १९; -मिन् निस् ४, ४ : ५.
अनुरूप^{२७}- -पम् कौसू ८१, ३.
अनु-रोग^{२८}- -गाः माशि १६, ५.
अनु-रोहित-> ? अनुरोहित्य-
अनुरोहिणी^{२९}- -णी अप १, ३, १.
अनु^{३०}लभ, अनुलभेरन् काश्रौ २५,
 १२, २५.
अनुलिप्सध्वम् काश्रौ २५, १२,
 २४^{३०}.
अनु^{३१}लिस्, अनुलिखेत् माश्रौ ५,
 २, १५, २८.
अनु-लेखन- -नम् बौपि ३, ९, २.
अनु^{३२}लिप्, म्प, अनुलिम्पते
 बौश्रौ १७, ४१ : २; हिग्य १, १०,
 ४; अनुलिम्पति बौश्रौ १०, ५ :
 १५; कौसू २६, ३६; अप २४,
 ४, १; अनुलिम्पन्ति आश्रौ ६,
 १०, ३; कौसू ८०, १५; अनुलि-
 म्पताम्, अनुलिम्पन्ताम् कौश्रु ४,

a) पाठः?। पाभे. वैप १ परि. अमुया काठ ३१, १४ टि. द्र.। b) पाठः?। सप्र. हिग्य १, ३, ११ प्रथ. अनुषजति इति। c) अस.। d) र्वस्व इति पाठः? यनि. शोधः (तु. शौ ९, ५, २)। e) पाभे. वैप १ परि. अनुपुष्यास्म मा २६, १९ टि. द्र.। f) नाप. (नक्षत्र-विशेष-) व्यु. ?। g) तस. > द्वस.। h) पाभे. वैप १ परि. अनुरोहते ऋ २, ५, ४ टि. द्र.। i) वैप १, परि. च द्र.। j) द्वस.। k) विप.। बस. > कस.। l) अस. बा. क्वि.। m) विप. (रोगिन्-)। मलो. बस.। n) व्यप. (अनुरोहित-गोत्रापत्य-जरोहिणी-)।

२,३१; अनुलिम्पस्व पाठ २, १४, १७; अनुलिम्पेत् आठ ३, ८, ११; भाट २, २० : ५, ८.
 अनुलेपयेत् वैट २, १४ : ३; अशां २२, ३१; अप ४२, १, ७.
 अनु-लिस,सा- -सः विध ६८, ४३; अप ४, २, ३; -साम् अशां १३, २; -से भाश्री १, ६, १५.
 अनु-लिप्य द्राश्री ५, २, ४; पाठ २, ६, १९; आपठ १२, ८.
 अनु-लिप्य^१ -प्यः अप ६८, ५, २०.
 अनु-लिप्यमान- -नम् वैताश्री १०, ५.
 अनु-लिम्पत् -म्पत् बौट १, ८, २.
 अनु-लेपन- -नम् आठ ३, ८, १; आमिठ २, ४-५, १० : २०; पाठ २, १, १८; काठ ३१, ६; माठ २, १३, ४; जैठ १, १९ : २; कौसू ९२, २२; अप ६, १, ६; अशां ६, ६; शंघ १२८; विध ६६, २; या ७, १३; -नानि आज्यो ८, ३; -नेन आठ ३, ८, ११; जैठ १, १८ : ९; -नैः अप ४, २, ३.
 अनुलेपन-पुष्प-धूप-नैवेद्या(द्य-आ)दि^१ -दि विध ६७, २४.
 अनुलेपन-प्रदान^१ -नेन विध ९१, १४.
 अनुलेपना(न-अ)र्थ- -र्थे विध ७९, ११.
 अनुलेपना(न-अ)लंकार^१ -रौ विध ६५, ७.
 अनु-ले(पक>)पिका^१-(>)अनुले-

पिका- पा.) पाग ४, ४, ४८.
 अनु-लेप्य आमिठ २, ४, ६ : २४.
 अनु-लेप्यमान- -नः भाट २, २० : ७
 अनु-लेखा^१ -खम् जैठ २, २ : ५.
 अनु-लेखन- अनु✓ लिख् द्र.
 अनु-लोम,मा^१ -पा ४, ४, २८; ५, ४, ७५; पाग २, ४, ६९^१; -मः आश्री ११, ३, ८; अप २४, ४, ४; बौध १, ९, ९; वैध ३, ११, २; १३, ७; -मम् काश्री ७, २, ३०; आपश्री १०, ६, १३; १४, १५, ११; बौश्री २, ६ : ३१; ६, २ : १४; १५, ३० : ११; भाश्री १०, ४, ९; माश्री १, १, १, ४१; ३, ६; ३, १, ८; ४, २; २, १, १, ३६; वैश्री १२, ७ : ५; हिश्री ४, १, २५; १०, १, ४३; ७, १७; निस् ६, २ : २४; गोठ ३, ८, १८; १०, २८; कौसू १, ३७; ४४, २९; ६७, २५; भाशि ११६; -मा अप २२, ६, १; -माः आश्री ११, ३, ८; ७, १०९; काश्री ५, १२, ८; आमिठ ३, ४, २ : १७^१; बौपि ३, २, ३; गौध ४, १६; ऋप्रा २, ८; पा २, ४, ६९^१; -मात् वैध ३, ११, २; १३, ७; -मात् द्राश्री ८, ३, २५; लाश्री ४, ७, ६; -मानि आश्री ११, ७, १९; हिपि ५ : ११; -माम् अप ३४, १, ७; -मायाम् वैध ३, १३, ७; -मासु विध १६, २; -मे आश्री १२, ५, ३; -मेषु अप ५९, १, ९; वैध ३, १२, ४; -मैः

लाश्री ८, ९, १०.
 अनुलोमी^१ -म्याम् वैध ३, ११, २.
 अनुलोमिक- पा ४, ४, २८.
 अनुलोम्य- -म्ये पा ३, ४, ६४; ५, ४, ६३; -म्येन अप २२, ६, १; विध २२, १९.
 अनुलोम-कृ(त>)ता^१ -ताम् हिपि १२ : २.
 अनुलोम-प्रतिलोमा (म-अ)न्तराल-व्रात्य^१ -स्यानाम् वैध ३, ११, १.
 अनुलोमा(म-आ)द्य^१ -द्याः वैध ३, १२, ३.
 अनु-उल्बण, णा^१ -फणम् आपश्री १९, १७, १३; बौश्री ३, ३० : १३; हिश्री २२, १, २४; अप्राय १, ३; माशि ३, ६५; -णाम् आपश्री ९, १५, १५; बौश्री २७, १२ : २६; १३ : ११; भाश्री ९, १८, २; हिश्री १५, ४, ३५.
 अनु-वंश,शा^१ -पाग ४, ३, ५४; पावाग ४, ३, ५८; -शाम् वैश्री १, २ : १०.
 अनुवंश्य- पावा ४, ३, ५८.
 अनुवंश्य- पा ४, ३, ५४.
 अनु✓वच्, अनुवक्ति वैश्री १०, १२ : ८.
 अनुचे वाधूश्री ३, ९२ : ३; अनु-वाच बौश्री १८, ४८ : १५; अनु-वक्ष्यति आश्री १, २, १^१; ऋनु-वक्ष्यामि शांश्री १, ४, ५; आपश्री २४, ११, २; ५; बौश्री ३, २७ : १६; भाश्री ३, १७, १; हिश्री २,

a) विप. । गस. उप. कर्मणि क्यप् प्र. । b) वस. पूष. द्रम. । c) षस. । d) द्रस. । e) नाप. । f) अस. वा. क्वि. । उप. <ले [=रे] खा- । g) विप., नाप. । वैप १ द्र. । h) व्यप. (ऋषि-विशेष-) । i) बहु. <अनुलोमि- । j) विप. > नाप. । स्त्री. गौरादित्वम् उंसं. (पा ४, १, ४१) । k) विप. । तुस. । l) विप. । बस. । m) वैप १, परि. च द्र. । n) अस. वा प्रास. वा । उप. =कुल-, वेणु-प्रभेद- । o) विप. (अभि-शाला-) ।

८, १६; २१, १, ८^३; अन्ववोचत्
शाश्रौ ३, १४, १४; ५, १३, ११;
अन्ववोचः वाधुश्रौ ४, ६ : ३:
अनु...अवक्ष्यामहि वाधुश्रौ २,
१३ : ४.
अनूच्यते आपध १, १, १०^१;
बोध २, १०, ५७^३; हिध १, १,
१०^१; अनूच्येत वैश्रौ १६, २५ :
७^३; विध ५४, २६.
अनुवाचयति शाश्रौ १६, १३,
१५^३; काश्रौ; अनुवाचयेत् बौश्रौ;
अनुवाचयेयुः वैश्र १, ७ : १०.
†अनु-वक्तवै आमिग १, १, २ : ४२;
हिग १, ४, ६.
अनु-वक्तृ- -क्तारम् बौश्रौ १०,
५० : ६.
अनु-वक्ष्यत- -क्ष्यन् बौश्रौ २, १९ :
३; ३, १७ : १४; २०, १८ : ६;
२४, १७ : ८; माश्रौ ५, १, ६, २१;
-क्ष्यन्तम् काश्रौ २, २, ११;
आपश्रौ ३, १९, ३; माश्रौ ५, २,
१५, १२.
अनु-वक्ष्यमाण- -णे आश्रौ ८, १४,
१२.
अनु-वचन- पाग ५, १, १११;
-नम् शाश्रौ ५, १४, २३; गौध
१, ६१; -नस्य माश्रौ ५, २, ८,
८; कौश्र २, ४, १; -नानि शाश्रौ
५, १६, ३; -ने हिश्रौ २१, १,
१२; २, ७; -नेऽ-ने हिश्रौ २१,
१, १२; -नेन आपश्रौ २४, ११,
१४.
अनुवचन-धर्म^०- -र्मण कौश्र २,
७, २४.
अनुवचन-प्रैष-याज्या^१- -ज्यासु
आश्रौ ५, ५, १३.

अनुवचना (न-अ) न्त^०- -न्ते
काश्रौ ३, १, १२.
अनुवचनीय- पा ५, १, १११.
अनु-वाक^०- -कः आपश्रौ १०, ३, ६;
माश्रौ; -कम् आश्रौ १०, ७, २;
शाश्रौ; -कस्य आपश्रौ २०, १९,
७; बौश्रौ; -काः बौश्रौ १५,
२३ : १२; १५; निस्; -कात्
कौश्र ३, १०, ३५; शाश्रु; -कान्
आपश्रौ १७, ११, ४; २०, १२,
१०; बौश्रौ; -कानाम् आपश्रौ
१५, २०, ४; २०, १०, ७; बौश्रौ;
-काभ्याम् काश्रौ २०, ८, ६;
आपश्रौ; -के काठश्रौ १६६;
बौश्रौ; -केन शाश्रौ ५, ९, २७;
काश्रौ; -केषु मैश्र २८; भाशि;
-कैः आपश्रौ; -कौ आपश्रौ १५,
१७, ४; १९, ७; भाश्रौ.
अनुवाक-चतुष्टय- -यम् चाअ
४ : ६.
अनुवाक-द्वय- -यम् चाअ १ :
२; १४; ४ : ४; ५; १४ : ३;
१५ : ७; ३९ : १८.
अनुवाक-शास् (:) अपं ४ : ६.
अनुवाक-शेष^०- -षः चाअ १ :
१२; -षम् आपश्रौ १५, ८, १७;
भाश्रौ ११, ८, २२; भाश्रु ३,
१६ : १०; -षेण काश्रौ १८, ३,
१२; आपश्रौ ६, १६, १२; १५,
१०, १२; १९, ३; १९, ७, ८;
१३, २४; २४, ११; भाश्रौ २,
३, ११; १०, १; ३, ९, १२; ४,
१६, ४; ५, ११, ५; ६, २, ३;
१०, ५, ६; १७, २१; १८, ११;
११, १०, १२; १९, १२; माश्रौ
६, १, १, २३; ७, २५; २, ५,

१३; वाश्रौ ३, १, २, २१; वैश्रौ
२, ७ : ९; १३, १२ : १९; हिश्रौ
६, ६, २४; २३, १, २७; २, ५०;
२४, ४, १०; शाश्रु ३, ११,
१५; पाश्रु ३, ९, ७; काश्रु ६३,
२०; काश्रु ४१ : २१; भाश्रु
२, २९ : ४; हिशि १८ : १९.
अनुवाक-संख्या^०- -ख्या चव्यू
२ : ३०.
अनुवाक-सूक्त^०- -क्ताः अपं २ : ४.
अनुवाका(क-आ)दि- -दयः पावा
२, ४, २९; -दिभिः अप ४६,
२, ४.
अनुवाका(क-आ)घ- -घम् अप
५, २, ४.
अनुवाका(क-अ)ध्ययन^०- -नम्
आपध १, ११, २०; हिध १, ३,
७०.
अनुवाका(क-अ)नुक्रमणी-
रूप^०- -पम् ऋश्र ३, २.
अनुवाकै (क-ए) कदेश- -शान्
मैश्र ९.
अनुवाको(क्त-उ)क्ता (क्त-अ)-
वस्थ-हवि- -स्कृत्^०- -क्ते वैश्रौ
२०, १० : २.
अनुवाको(क-उ)त्तम- -मैः अप
४६, २, ४.
अनु-वाक्य,क्या- -क्यम् आपध
१, ११, ६; हिध १, ३, ६३;
-क्या आश्रौ १, ५, २९; ६, २;
२, १४, १९; १९, २८; ५, ४, २;
६, ५, २४; ११, १२; काश्रौ
५, १२, ११; माश्रौ ५, २,
४, ३९; ८, २; -क्याः आश्रौ
३, ७, ३; ५, ४, ६; हिश्रौ १२,
३, ३; २२, ४, १६; गोश्रु

a) मैसू. पाठः । b) पाठः ? तु, वाचयति इति द्वि-पदः शोधः (तु. आनर्तीयः C. च) । c) षस. ।
d) द्रस. । e) वैप १, परि. च द्र. । f) विप. । षस. । g) विप. । षस. > षस. । h) तुस. > षस. > षस. > षस. ।

३,३,८; द्राण्य ३,२,२१; -क्याम्
आश्रौ ३, १, २१; -क्यायाः
आपश्रौ १९, २२, १४; माश्रौ
१,३,२,८; ५, १, ९, २२; हिश्रौ
२२,४,१७; -क्यायैवाश्रौ ३,२,
२,२५; चाश्र ३० : २१; -क्यासु
आश्रौ ५,४,७; -क्ये आश्रौ २,
१९,१७; ३, १३, १८; ५, ५, २.

अनुवाक्या(क्या-अ)न्त- -न्ते
वाश्रौ १,१,१,४८.

अनुवाक्या-प्रैष- -षः माश्रौ
५,२,८,३४; ३८; ३९.

अनुवाक्या-लिङ्ग-विशेष-
-वात् आश्रौ १,५,३३.

अनुवाक्या-वत् आश्रौ १,१०,
१.

अनुवाक्या-व(त्>)ती^१-
-वत्यः आश्रौ १,५,३०.

अनुवाक्यो(क्या-उ)त्तर^२-
-रः वाश्रौ ३,२,८,१४^०.

अनु-वाचन- पाग ५,१,१११; -नम्
काश्रौ ५, १२,४; १५,१०,१३;
१९,३,७; -नस्य शाण्य २,७,१;
-नात् काश्रौ १०,२,१५.

अनुवाचन-न्तस्य (:) बौश्रौ २३,
३ : ५.

अनुवाचन-धर्म- -मेंण शाण्य २,
१२,१२.

अनुवाचन-प्रभृति- -ति काश्रौ
१०,१,२६.

१अनुवाचन-प्रैष^३- -षः काश्रौ
१,९,१३.

२अनुवाचन-प्रैष^०- -षौ काश्रौ ९,
९,७; १२,६,१३; १९,७,९.

अनुवाचनीय- पा ५,१,१११.

अनु-वाच्य वाश्रौ १, १,१,४७.

अनु(नु-उ)क्त,क्ता- -क्तम् आपश्रौ
१३,७,१४; बौश्रौ १६,१३ : २;
आण्य १, २२, १५; काण्य ४१,
१८^१; कौसू ४७,४०; -क्तस्य
आमिण्य १, १, २ : ४२; हिण्य
१, ४, ६; -क्ता हिश्रौ १०, ४,
७७; -क्ताः आपश्रौ ११, ३,
५; -क्तान् कौसू १४, २८;
३५, २३; ४८, ४; -क्तायाम्
आपश्रौ ७, ६, ६; १३, २; १०,
२८, ७; ११, ६, ११; १७, ३;
१६, २१, ४; बौश्रौ ३, १४ १३;
माश्रौ ७, ५, ७; १०, २; १०,
१९, १७; माश्रौ १, ७, ३, ३९;
२, १, ४, ३०; २, २, १७; ४, २१;
वैश्रौ ८, ५ : १६; १०, ५ : ८; १० :
७; १४, १५ : ७; १८, १६ : ३० :
हिश्रौ ४, २, ६; ३, १३; ७, ३,
१८; ५, ६; ८, २०; ११, ७, ५;
बौण्य २, ५, ४३; -क्तासु बौश्र
१, १५ : ६; ३, २७ : २०; ४,
६ : २; ५, ३ : ३; ७ : ३; १३ :
३; ६, १८ : २३; २० : २१;
११, ४ : ३; १५, २८ : २; वैश्रौ
६, १ : ७; ८, ११ : ९; -क्ते
काठश्रौ ५१; ९१; वाधश्रौ ४,
७५ : ४१; शाण्य २, ११, १३.

अनु(नु-ऊ)चान^१- -नः काश्रौ १५,
३, २४; आपश्रौ ११, २, १०;
बौश्रौ १८, २६ : १३; माश्रौ
११, १२, १७; वाधश्रौ ४, १८ :
२०; २१; ३१; ३७ : ४; ९० :
२०; हिश्रौ १०, ४, ५१; २४,
५, ८; द्राश्रौ, लाश्रौ १, १, ७;

वैताश्रौ १३, २६; बौण्य १,
७, ४; ३, २, २८; वैण्य १, १ : १५;
अण्य ४४, २, ४; शंभ्य १९९; या
१३, १२; पा, पावा ३, २, १०९;
-नम् जैश्रौ १ : १२; निसू २, ९ :
३४; बौण्य १, ७, १२; अण्य ३७,
१६, १; वाध २, ५; बौध १,
११, ३१; -नस्य बौश्रौ १८,
१२ : १६; बौध १, ११, ३१;
-नाः वाधूश्रौ ४, १८ : २३;
२७; ९० : १७; जैश्रौ १ : १२;
-नान् शांश्रौ ५, १, १; आपश्रौ
१०, १, १; भाश्रौ १०, १, १;
लाश्रौ ८, ५, १; बौध २, ८, ६;
-नाय वैश्रौ १६, ७ : ९; बौध
२, १, ५७; -ने बौध १, २, ३७;
-नेभ्यः बौण्य २, ११, ५८; -नेषु
हिध २, ३, ४४; -नैः जैश्रौ १ :
१३; -नौ लाश्रौ ९, ६, १२.
अनूचान-तम- -मः काश्रौ २२,
४, ७.

अनूचान-पुत्र- -त्रः हिश्रौ १,
४, ५१; आपध २, १७, २२^६.

अनूचान(न-ऋ)र्विज^४- -र्विजः
काश्रौ ७, १, १३.

अनूचान-सु-इक्षि(ण>)णा^१-
-णाम् अप ७२, ५, २.

अनूचाना(न-अ)गार- -रात् गौण्य
१, १, २५.

अनु(नु-उ)च्य आश्रौ.

अनु(नु-उ)च्य,च्या^१- -च्यम् काश्रौ
१८, ४, २४; आपश्रौ २४, १,
११; हिश्रौ २१, १, १०; माण्य १,
२२, १५^१; -च्यानि शांश्रौ १७,
२, ८; बौश्रौ ६, १० : ८; १०, १२ :

a) विप. (देवता-) । b) विप. (प्रैष-) । बस. । c) °क्या उ' इति पाठः ? यनि. शोषः ।

d) षस. । e) द्वस. । f) वैप १, परि. च द्र. । g) सप. अनूचानपुत्रः श्रोत्रियः <> ब्राह्मदे गानुसंतानी
इति पाठे. । h) कस. । i) विप. (महा-शान्ति-) । बस. > प्रास. ।

५,४२: १७; १३,४२: १.
 अनू(नु-उ)च्यमान,ना- नः बौश्रौ
 १०, ११: ५; चाअ ४१: २;
 -ना: भाश्रौ ४, १२, ४; वैश्रौ १८,
 ४: १७; -नायाम् काठश्रौ ४२;
 -नासु आपश्रौ ४, ९, ३; १९,
 १९, १४; बौश्रौ ३, २४: १२;
 १३, ८: १६; १९: ४; वाश्रौ
 १, १, ५, १४; हिश्रौ ६, ३, २;
 २२, २, २३; ३, १२; -ने आपश्रौ
 ३, ६, ६; ७, ११; बौश्रौ १३, ८:
 १५; १९: ३; माश्रौ ३, ५, १७;
 ६, १५; वैश्रौ ७, ६: ६; द्राश्रौ
 १५, ३, १८; लाश्रौ ५, १२, २.
 अनु-वत्सर^१ - राय माश्रौ १, ६, ४,
 २११.
 †अनुवत्सरी (ण>) णा^२ - णाम्^३
 आपश्रौ ८, २१, १; बौश्रौ ५,
 १८: २७; १४, ३०: ६; भाश्रौ
 ८, २३, ८; १०; वैश्रौ ९, १२:
 १३; हिश्रौ ५, ६, ३.
 अनुवत्सरी(य>)या^४ - या माश्रौ
 १, ६, ४, २११.
 अनुवत्सरीयो(या-उ)द्वत्सरी-
 या^५ - ये माश्रौ १, ७, ८, ६९.
 अनु/वद्^६, अनुवदन्ति वैग् १, ७:
 ७; अनुवदेत् वाश्रौ १, १, १, ३.
 अनु-वाद- -दः काश्रौ ४, ३, १८;
 बौश्रौ १४, ५: ३७; ऋषा १४,
 १८; मीसू ९, १, २२; ३१; ११,
 १, ४७; -दे पा २, ४, ३.
 अनु-वादन- (>अनुवादनीय-पा.)
 पाग ५, १, १११.
 अनू(नु-उ)दित- -तः काण्ड ४१:

१८.
 अनु/वप्, अनुवपन्ति, अनुप्यते या
 २, २२.
 अनु-वर्तमान- प्रसृ. अनु/वृत् द्र.
 अनु-वर्त्म- -र्त्म काश्रौ १५, ६, ३१.
 अनु-वषट्/क, अनुवषट्करोति आश्रौ
 ८, १३, १८; शाश्रौ ५, १०, १९;
 १०, २१, ३; आपश्रौ १३, १३,
 ३; १४, ९; बौश्रौ ८, १२: २९;
 माश्रौ २, ४, २, ५; ५, १, ३, ११;
 २, ४, ४२; वाधूश्रौ ४, ९५: ५;
 वैश्रौ १६, १२: ५; १५: ७; १७:
 १०; हिश्रौ ९, ३, २५; ५७; ४,
 २२; अनुवषट्कुर्वन्ति वैताश्रौ
 १९, १०; २०, ३; अनुवषट्कुर्यात्
 आपश्रौ १३, १४, १०.
 †अनुवषट्कुर्याः आश्रौ ५, ५,
 २१; बौश्रौ २५, २०, २१;
 वैताश्रौ २०, ४^{१६}.
 †अनुवषट्-कार- -रः आश्रौ २, १६,
 १५; ३, ९, ४; ४, ७, ४; ५, ५,
 १९; १३, ६; शाश्रौ ३, ८, २४;
 ७, ३, ४; १६, ७; ८, ८, ४;
 आपश्रौ १२, २४, २; बौश्रौ २५,
 २०: १९; हिश्रौ ८, ६, १५; ९,
 ४, २१; -रम् बौश्रौ २३, १९:
 ३९; वैताश्रौ ४, ४; -रस्य माश्रौ
 ४, ३, २७; -राणाम् वैताश्रौ १९,
 १२; -रान् शाश्रौ ८, १५, २; ५;
 १७, १७, ११; वैश्रौ २१, ४: ५;
 मीसू ८, २, २; -रान् हिश्रौ ९,
 ३, ५०; -रे शाश्रौ १, १, ४१;
 वैश्रौ २१, ४: ६; -रौ वैश्रौ
 १६, ८: १४.

अनुवषट्-कृत- -ते आश्रौ ४, ७, ४^२;
 शाश्रौ ८, १५, १३; काश्रौ ९,
 ९, १३; २५, १२, २; २६, ६, ५;
 आपश्रौ ८, ३, ८; १३, ४, २; १२,
 ४; ७; १५, १०, ११; १९, ८, १०;
 बौश्रौ ५, ४: १३; ८, ३: १४;
 १२: १८; १४: २५; १६: १७;
 ९, १०: १९; १७, ३६: १;
 भाश्रौ ८, ३, १२; ११, १०, ११;
 माश्रौ ४, ३, २६; ५, ६; वाधूश्रौ
 ३, १०२: ३; वैश्रौ १३, १२: १७;
 १५, ३०: १; १६, ४: १; १४:
 १; २१: १; २१, ४: ७; हिश्रौ
 ८, ६, १३; ७, २७; ७२; ९,
 १, ३५; ४, ५०; १३, ८, २८;
 २३, १, ३७; २४, ४, ९; वैताश्रौ
 १४, ६; -तौ बौश्रौ २१, २२: ८.
 अनुवषट्-कृति- -तौ वैश्रौ १६, १४:
 ८.

अनुवषट्-कृत्य शाश्रौ ५, १०, २२.

अनु/वस् (निवासि)^१, अनूपुः अमा
 ३, ४, ११.
 अनु...वासयन्ति आपश्रौ ८ ११,
 १४; बौश्रौ ५, १०: १७; माश्रौ
 ८, १२, २०; वैश्रौ ९, ३: ३;
 हिश्रौ ५, ३, ३०.

अनु/वस् (आच्छादने), †अनुवस्ताम्
 आपश्रौ ४, १३, ४; भाश्रौ ४,
 १९, ६; माश्रौ १, ४, ३, २;
 वाश्रौ १, १, ४, १०; वैश्रौ ७,
 १०: २; हिश्रौ ६, ४, २.

अनु/वस् (गन्धे) > अनु-वासन-
 (>अनुवासनीय-पा.) पाग
 ५, १, १११.

a) वैप १, परि. च द्र. । b) ख>इनः प्र. उलं. (पा ५, १, ९२) । c) पामे. वैप २, ३खं. अनुवत्स-
 रीणाम् तैत्रा १, ४, १०, ३ टि. द्र. । d) द्रस. । e) पा १, ३, ४९ इत्यत्र परामृष्टः द्र. । f) अस. समासान्तष्
 टच् प्र. (पा ५, ४, १०८) । वाः क्वि. । g) ष्ताः इति पाठः ? यनि. शोषः (तु. C.) । h) पा १, ४, ४८
 इत्यत्र परामृष्टः द्र. । i) ष्यति इति पाठः ? यनि. शोषः (तु. सप्र. आपश्रौ. प्रसृ.) ।

अनु/वा, अनुवात बौश्री १०, ४८ :
 २१; अनुवायात् अप १, ३६, ३.
 अनु-वा^० - वा वैयाश्री २२, ४^०.
 अनु-वात् - वाति आपध १, ६,
 १५; हिध १, २, ३८.
 अनु-वाक-प्रघ. अनु/वच् द्र.
 १ अनु-वात^० - तम् पागृ ३, ८, १३.
 २ अनु वात^० - तम् आगृ २, १०, ४.
 अनु-वारक- अनु/वृ (मंभकौ) द्र.
 अनु-वासन-, °वासनीय- अनु
 ✓वस् (गन्धे) द्र.
 अनु-वि/कृप्, अनुविक्रक्ष्ये वाधूश्री
 ३, ४६ : ६.
 अनु-वि/कृ (विक्षेप), अनुविकिरति
 आपश्री १५, १५, १; हिपि १६:६.
 अनु-वि/क्रम्, अनुविक्रमते वाधूश्री
 ३, १३ : २; ऋनुविक्रमस्व^०
 आपश्री २२, १९, १; बौश्री १०,
 १६ : २; हिश्री १७, ७, १०.
 अनुविचक्रमे बौश्री ४, ३:३९^१;
 अनुव्यक्रंसि शाश्री ४, १२, २^१.
 अनु-वि/चक्ष्, अनुविचक्ष्व माश्री
 १०, ७, १८^१.
 अनु/विद्(ज्ञाने), ऋनुवेद आश्री ३,
 ७, ८; आमिगृ ३, ५, ४:९; बौपि १,
 ३:१९; अनुवेथ्य लाश्री ९, १०,
 ९^१; अनुविद्धि आश्री २, १०, १६^१
 अनु-विद्य वाधूश्री ४, १८ : २२; २३.
 अनु/विद्(लाभे), ऋनुविविन्दन्
 आपश्री २, ११, १०; बौश्री १,
 १० : १६; माश्री २, ११, ११;

माश्री १, २, ४, ४; वाश्री १, १,
 २, १९; हिश्री १, ८, ३१; अपं
 २ : ४७; अन्वविन्दन्त वृदे ७,
 ११२; अन्वविन्दन् आपश्री १७,
 १८, १^१; बौश्री २४, ३ :
 १४; वाधूश्री ४, २२ : ११; १३;
 २६^२ : ७; आपमं २, १, ८^१;
 वागृ ४, २१^१; कागृ ४०, १५^१.
 अनु-वित्त- -त्तम् आपश्री ५, १, ७^१.
 अनुवित्त-यज्ञ^० - ज्ञम् वाधूश्री
 ४, २२ : १६.
 अनुवित्ता(त-अ)ग्नि^० - ग्निम्
 वाधूश्री ४, ७५ : ४४.
 अनु-वित्ति^० - त्ति: वाधूश्री ४, २२ :
 १३; ७५ : ४१^२; ४२; -त्तिम्
 वाधूश्री ४, ७५ : २६; ३७; -त्या:
 काश्रीसं ५ : १७; -^१त्त्यं काश्रीसं
 ३ : ५; ५:१६; १८.
 अनु/विध्, अनुविध्यतु कौसृ ९८, २.
 अनु-वि(द्ध>)द्धा- -द्धा अप ७०^३,
 ११, ८.
 अनु-विध्य या ६, १२.
 अनु-वि/धा अनुविधोत शाश्री
 १३, १, ३:६; द्राश्री १३, १,
 १९; लाश्री ५, २, १.
 अनुविधीयन्ते तिसू ३, १ : २३.
 अनुवि-हित- -तम् बौश्री २६, २०:४.
 अनु-वि/नी, अनुविनयेत् आमिगृ ३,
 ६, ४ : ११^१; बौपि १, १३:१०^१.
 अनु-वि-प्र/वस् (निवारे)>अनुवि-
 प्रो(प्र-उ)षित- -ते बौगृ ३, ४, ३४.

अनु-वि/भञ्ज्, अनुविभजन्ति
 वाधूश्री ३, ८९ : ३.
 अनु-वि/मृञ्, अनुविमृज्यात्
 कौगृ १, १३, २^१.
 अनुवि-मृज्य शांगृ १, २१, ३^१.
 अनु-वि/रुह्, अनुविरोहतु बौपि
 १, १५ : ७५^१.
 अनु-वि/शद् > अनुवि-शाद्य बौश्री
 १, १४ : १७; १६ : ३.
 अनु-वि/पिच्, ङच् > अनुवि-
 पिच्यमा(न>)ना- -नया आपश्री
 ८, ३, ८.
 अनुवि-पिञ्चत्- -ञ्चत् आपश्री ८,
 ३, ६; माश्री १, ७, २, १३.
 ?अनुविष्टम्भ^० - म्भम् या १२, १.
 अनु-वि/सु > अनुवि-सुत्- -तम्
 आपश्री १०, २३, २; माश्री १०,
 १५, ९.
 अनु-वी(वि/ई), अनुव्येति वाधूश्री
 ४, ११३ : ४.
 अनु/वी, ऋनुवेत् > ता^० आपश्री
 १, १०, ६; माश्री १, ९, ११.
 अनु-वी^० - व्यम् वाधूश्री ४,
 ५९^२ : २^१.
 अनु-वी(वि/ई)क्ष्, अनुवीक्षते आपश्री
 १, १८, ४; २, ३, १०; ४, ४, ९; ११,
 १८, २; १३, ६, १४; १५, ३, ७;
 ४, ७; २२, २८, २४; वैश्री;
 अनुवीक्षे आश्री ८, १४, १८^१.
 अनुवीक्षयन्ति आमिगृ १, २,
 ३ : १६.

a) वैप १, परि. च द्र. । b) पाभे. वैप १ परि. अनुया मा १५, ६ टि. द्र. । c) अयस. वा. क्वि. ।
 d) विप. (देश-). मलो. बस. । e) सपा. तां २१, १०, १३ अथिविक्रमस्व इति पाभे. । f) पाभे. वैप
 १ परि. जगन्थ मा २३, ४९ टि. द्र. । g) पाभे. वैप २, ३खं. वयैच्छन् तैबा २, ७, १७, ३ टि. द्र. । h) विप. । बस. ।
 i) नाप. (इष्टि-, देवता-) । गस. उप. कर्मणि ऋन् प्र. । j) °नमेत् इति पाठः? यनि. शोषः (तु. बौपि.) ।
 k) अनुविनयति इत्युपस्थापुकः C. [भू १२] विमृश्यः । l) सपा. अनुविमृज्यात् <> अनुविमृज्य इति पाभे. ।
 m) पाठः? अनु-वि° (कस). इति शोषः (तु. टि. सस्य. अनु). । n) मपु. ३ > तपि रूपम् । पाभे. पृ १९१ h टि.
 द्र. । o) भाप. । p) पाभे. वैप २, ३खं. माश १, २, ५, १ टि. द्र. । q) पाभे. वैप १ प्रतीक्षे का २, ३, ४ टि. द्र. ।

अनुवी (वि-ई)क्षमाण- णः आश्रौ
२, ५, १७; द्राश्रौ ११, २, १०;
लाश्रौ ४, २, ९.
अनुवी (वि-ई)क्ष्य शाश्रौ ६, १२, २४.
अनुवृ (संमत्तौ) > अनुवारक-
(> आनुवारक-) अनुवारक-
द्र.
अनुवृत्, अनुवर्तते बौश्रौ १५,
९ : ३; अनुवर्तते बौश्रौ १७,
५६ : १८; ५९ : १६; अनुवर्तन्ते
बौश्रौ १०, ५५ : १०; ११; ऋनु-
वर्तस्व आपश्रौ ९, १४, १; बौश्रौ
२९, १३ : १; वैश्रौ २०, २९ : ७;
अनुवर्तते बौश्रौ १४, २० : २६;
२४, १७ : ११; ३३ : १५; १६;
काण्ड ४१ : १२; याशि २, ३१;
अनुवर्तेरन् काश्रौसं २९ : ३; बौश्रौ
२१, २६ : १३; १४; २२, १७ : ९;
२३, ८ : ३४; १३ : ११.
अनु (वावृत्तः) आश्रौ ९, ११,
२१; अनु...अवृत्सत आमिष्ट
२, ५, १० : ३१.
अनुवर्तयते आपश्रौ ५, १६, २;
८, ३, ४; ७, ८; १२, ५; २१, १;
१९, १७, ४; बौश्रौ १५, २६ :
१२; हिश्रौ २२, १, १५; जैश्रौ
३ : २८; अनुवर्तयति शाश्रौ ३,
१६, १२; बौश्रौ; ऋनुवर्तये
आपश्रौ ८, ४, २; बौश्रौ ५,
४ : २९; ९ : ३०; १७ : १८;
१८ : २४; हिश्रौ ५, १, ४५;
ऋनुवर्तये माश्रौ १, ७, २, २३;
अनुवर्तयेत् बौश्रौ २३, ९ : १३;
अनुवर्तयेत् आश्रौ ५, ३, ११.
अनुवर्तमान- नः हिश्रौ १२, ५,

३१; आपध १, १२, १२; बौध
२, ४, २४; हिध १, ४, १३.
अनुवर्तयत्- यन् पाठ २, ३, ५.
अनुवर्तयित (व्य >) व्या- -व्या
बौश्रौ २३, ५ : २३; २६, ७ :
२४.
अनुवर्तयित्वा आपश्रौ १०, २२, १२.
अनुवर्तिन्- र्ति बौश्रौ २४, ३३ :
१७.
ऋनुवृत्- -वृत्, -वृत्तम्,
-वृत्ते वैताश्रौ २६, ८.
अनुवृत्ति- -त्तिः आश्रौ २, ८, ९;
३, ५, ७; -त्तौ पावा ४, ३, १३२;
-स्या आमिष्ट ३, १, २ : २२.
अनुवृत्ति-निर्देश- -शो पाप्रवा १,
४; पावा १, १, ६९.
अनुवेदि- -दि काश्रौ १४, ३, २४.
अनुवेन्, ऋनुवेनति या १२,
२९.
अनुवेष- -वान् बौश्रौ १५, १४ : ६.
अनुवेष्ट > अनुवेष्टित- -तः
वाधूश्रौ ३, ६९ : ३६.
अनुव्यत्यय- -यम् निसू ९, १३ :
४३.
अनुव्य (वि/अ)न्, अनुव्यनिति
हिश्रौ १२, १, १०.
अनुव्या (वि-आ) √ख्या, अनुव्या-
ख्यास्यामः आमिष्ट ३, १०, १ :
४; बौश्रौ १, १, २; ३, ३, ३; बौध
१, १, २; ३, १, ४.
अनुव्या (वि-आ) √हृ, अनुव्याहरन्ति
आपश्रौ १०, २, ११; अनुव्या-
हरेत् बौश्रौ ९, १८ : २३; बौश्रौ
३, ४, ३६; कौसू ४९, १६;
अनु...व्याहरेत् वाधूश्रौ ३,

१९ : १५; ४, २८ : ६; ३३ :
१०; ६९ : ४; ७६ : ७; ८० : ४.
अनुव्याजहार शाश्रौ १५, १६,
११; २६, १; वाधूश्रौ ३, ८८ :
१५; अनुव्याहारीत् द्राश्रौ ४,
१, ११; लाश्रौ २, १, १०.
अनुव्याहार- -रः बौश्रौ २६, ७ :
१२.
अनुव्याहार-भय- -यम् काश्रौ
२५, १०, १७.
अनुव्याहरिव्यत्- -व्यन् बौश्रौ ९,
१८ : २२.
अनुव्यू (वि/ऊ)ह (पापणे), अनुव्यूहति
आपश्रौ ५, १०, १; १५, १४, ५;
१६, १५, १; ३४, ६; १९, १२,
१८; बौश्रौ १०, २० : १२; १४;
२६ : १५; १७; १९, २ : ५;
७; भाश्रौ ११, १४, ६; हिश्रौ
११, ५, २८ : ३७; ८, १९; २३,
२, २९; आमिष्ट ३, ८, २ : २३;
२४; बौपि १, १५ : ३२; अनु-
व्यूहन्ति निसू ३, ६ : २७; अनु-
व्यूहामः निसू ३, ६ : ३०.
अनुव्यू (वि-ऊ)ह- -हम् निसू ८, ३ :
२२.
अनुवृत्, अनुवृजति वैताश्रौ १५,
१६; माण्ड २, १४, १३; कौसू
५१, १; अनुवृजतः माश्रौ २, १,
३, ४९; अनुवृजन्ति माश्रौ २,
२, २, १९; अन्ववृजत् वृदे ४,
३; अनुवृजेत् आश्रौ २, १७, ११;
४, ७, ४; ८, २२; द्राश्रौ १३, ३,
१८; लाश्रौ ५, ४, ३; हिपि २,
३ : ५; कप्र १, ४, १०; वाध
११, १५; शंभ १३३; १३४;

a) त्रिप. (वैष्णवी- ऋच्-). b) वैप १, परि. च द्र. c) पाभे. वैप १ परि. अनुवृत्, वृत्ते टि. द्र. d) अस. वा. क्वि. e) नाप. (दर्वि- लु. मूको. पाभे. सप्र. बौश्रौ १५, १९; १२ च.) व्यु. ?। < अनुवृत्तिः । *पेपणे। इति ?। f) उपसृष्टस्य धा. शापे वृत्तिः ।

गौध २, ३४; अनुव्रजेयुः आश्रौ १२, ६, ३.
 अनु-व्रजत्- -जन् आश्रौ २, १७, ६; छ, ४, ३; १०, २; द्राश्रौ १, ३, २८; १४, ३, ४; लाश्रौ ५, ७, ३.
 अनु-व्रज्य आपृ २१, ९; गौपि २, ५, १५; विध २१, १६; ७३, ३२; ७४, १.
 अनु-व्रज्या^१- -ज्या बौध १, २, ४३.
 †१अनु-व्रत, ता^२- -तः भागृ ३, १५ : २३; -ता बौधौ १, १२ : २१; माश्रौ १, २, ५, १२; वाश्रौ १, ३, २, २१; हिश्रौ ६, ३, २; आपमं १, २, ७; ३, १४; आगृ १, ७, १९; शांगृ १, १३, ४; पागृ १, ८, १; आमिगृ १, ५, ४ : ३९; कागृ २५, ४; बौगृ २, ४, १; भागृ १, १७ : १०; वागृ १४, १३; वैगृ ३, ८ : ७, ९; हिगृ १, २४, ५; जैगृ १, २१ : १५; अत्र १३, १.
 २अनु-व्रत^३- -तम् आमिगृ २, ६, ५ : १४; बौगृ २, ९, १४; आपध २, १, १७; हिध २, १, १६.
 अनु ✓ व्रति (<व्रत-), अनुव्रतयेत् बौधौ १२, १३ : १३; बौध २, १०, ५९†.
 अनु ✓ शांस, अनुशांसति शाश्रौ ९, २५, १; आपश्रौ १४, १८, ७; ११; १५; १७, १२, १२; १९, १२, २६; १५, ६; २०, २४, १०; बौश्रौ १०, ४९ : १८; १९, ४ : ३३; माश्रौ ३, ७, ९; ६, २, ४, ९; वाश्रौ २, २, ३, १५; वैश्रौ १९, ६ : ६३; हिश्रौ १२, ३, १५; १३, ६, ३६; १५, ५, १०; २३,

२, ३७; ३, २६; वैताश्रौ ३५, १; आमिगृ ३, ६, १ : २०; †बौपि १, ८ : १८; हिपि ७ : १४; वृदे १, १०३; †अनुशांस शाश्रौ ९, २५, १^४; बौश्रौ १०, ४९ : १६; १९, ४ : ३२; अनुशांसेत् आश्रौ छ, ८, २४; शाश्रौ ७, २१, ६; १०, ९, १४; १८, २३, १३.
 अनुशांस्यात् बौश्रौ १८, १५ : २१.
 अनुशांस्यते हिश्रौ १६, ६, ४४.
 अनु-शांसत्- -सते लाश्रौ ८, २, २५; -सन् द्राश्रौ ६, २, २१; लाश्रौ २, १०, २०; अप्राय ६, ५.
 अनु-शांसन- -नम् बौश्रौ २५, ३० : १७; आमिगृ ३, ७, ३ : २४; बौपि २, २, २; हिपि १९ : ११; -नात् आपश्रौ १९, १५, ५; हिश्रौ २३, ३, २७.
 अनुशांसना(न-अ)न्त- -न्ते बौश्रौ १९, १० : ५८.
 अनु-शांसयत्- -यन् निस् ५, ९ : २०.
 अनु-शांसयितुम् निस् ५, ९ : २५.
 अनु-शास्त- -स्तम् बौश्रौ ९, १७ : ३८.
 अनु-शाण्ड- (> आनु^४)अनु-षण्ड- द्र.
 अनु-शतिक^५- (> आनुशातिक^५- पा.) पागृ ७, ३, २०.
 †अनु ✓ शम्, अनुशास्यताम् अशां ७, १; अप १, ३७, १.
 अनु-शाम्य^६- -म्यम् वाश्रौ १, ६, १, १९.
 अनु-शार्कर^७- -रम् बौश्रौ १७, २९ : ३; १४.
 अनु ✓ शास्, अनुशास्ति वैगृ २, ६ : १७; अप १३, ३, २; अनुशासति वृदे ७, ३७; अनुशिन्यात् वाध १, ४१.

.अन्वशात् वृदे छ, १३१.
 अनु-शासत्- -सत् वाध १, ४२.
 अनु-शासन- -नम् काध २७९ : ८; वृदे ७, १३४.
 अनुशासन-वाद्- -दाम्बाम् वाध १०, २१.
 अनु-शाशु^८- -शुः आपश्रौ १९, २, ५; -शुम् शाश्रौ १५, ४, १२; आपश्रौ १९, ८, ५; काश्रौ १९, ४, ५; हिश्रौ २३, १, ३२.
 अनु ✓ शी, अनुशेते या छ, १३.
 अनु-शाथिन्- -थिनम् या छ, १४.
 अनु ✓ शुच् (परितापे) > अनुशोचिनुम् विध २०, ५३.
 अनु ✓ शुष्, अनुशुष्येत् कौस् ४१, १; १२६, ३.
 अनु-शूक- अनु-शूक- द्र.
 अनु ✓ श्रु, श्रु, अनुशुश्रुम् शंघ ४५७ : ८.
 अनु-श्रण्वत्- -ण्वते बौश्रौ १५, ३ : ८†.
 अनु-श्राव्य शंघ १०८; २१७.
 अनु ✓ श्रु (= श्र)न्थ, अनुश्रन्थति बौश्रौ ६, १४ : १९, माश्रौ १०, १६, ११; वैश्रौ १२, १८ : ३; हिश्रौ ७, २, ४५; भाशि ५७.
 अनु-श्लोक^९- -केन आपश्रौ २१, १७, २†.
 अनु ✓ पञ्, ङ्ज्, अनुषजति काश्रौ २, २, १२; आपश्रौ ३, १९, ४; १०, ७, ११; ३०, १०; ११, १५, २; १२, १७, १८; २०, २; ५; २४, ८; १४, १२, ४; २०, ७; २१, ४; २८, ५; १७, ६, ११; १६, १९; १८, १३, १९; १९, ९, ६; १७, १९; २०, ९, ५; २२, १९, २; बौश्रौ;

a) गस. उप. भाप. । b) वैप १, परि. च द्र. । c) अस. वा. क्रिवि. । d) सपा. शांभा १९, ४ अनुषप इति पाठे. । e) विप. । प्रास. उप. शत- + ठञ् प्र. (पा ५, १, २१ [तु. पायम.]) । f) तस्येदमीवः अण् प्र. । g) दस. । h) विप. । प्रास. ।

अनुषजन्ते हिश्रौ १६, ६, ४१;
अनुषजेत् भाश्रौ १०, २१, ८;
माश्रौ ३, ३, ५; ६; वाश्रौ.
अनुषज्यते मीस् २, १, ४७;
अनुषज्येते काश्रौसं ६ : ८.
अनु-षक्त, क्त- -क्तम् आपश्रौ १२,
१६, १६; या ६, १४; -क्तम्
वैश्रौ १८, २० : ६५.
अनु-षङ्ग- पाग ७, ३, ५३; -ङ्गः
काश्रौ १०१; १६६; माश्रौ ६,
१, ५, ६; जैश्रौका १३५; काण्ट
२५, ४२; अप्राय ४, १; मीस् २,
१, ४६; -ङ्गम् हिश्रौ १०, ६, १०;
-ङ्गे वीश्रौ २१, १० : १; ऋप्रा
१४, ९; -ङ्गेण शंघ १०४.
अनुषङ्ग-संयोगादि-लोपा (प-
अ)र्थ^a - र्थम् पावा १, १, ४७.
अनुषङ्ग-स्थान^b - -ने निस् ४,
२ : १२.
अनुषङ्गिन्- -ङ्गिना अप ५८^२,
२, ५; -ङ्गीणि वीश्रौ २१, १० :
१०.
अनु-षञ्- -षक्, ट् पाग १, १, ३७;
४, ५७.
‡अनुषञ्- -षक् आश्रौ
२, १४, ३१; शाश्रौ १, १७,
१९; ६, ४, ३; आपश्रौ १११,
१०, १७; १९, १८, ७; भाश्रौ १२,
६, ८; माश्रौ ५, १, ३, १४; हिश्रौ
७, ४, ६०; अप ४८, ११५; निघ
४, ३; या ६, १४०; ऋप्रा ३, ४,

१; पाग १, १, ३७; ४, ५७;
पावा ७, ३, ८७.
अनुषग्-आदि^c - -दिः ऋत ५,
५, ६.
अनु-षजत्- -जन् भाश्रौ १०, ७,
१४.
अनु-षण्ड^d - (> आनुषण्ड- पा.)
पाग ४, २, १३३^f.
अनु/षस्त्, अनुषजेताम् वीश्रौ
२१, १० : १.
अनु/षिच्, ङ्च्, अनुषिञ्चतः काश्रौ
६, ६, ४; ‡अनुषिञ्चतु कौण्ट १,
१२, ६^g; अनुषिञ्चतु शाण्ट १,
१९, ८^h; ‡अनुषिञ्च आपश्रौ २,
१८, ९; वीश्रौ १, १६; १४; भाश्रौ
२, १७, ९; हिश्रौ २, २, २१; अनु-
षिञ्चयात्ⁱ वाधुश्रौ ३, ३९ : ७.
अनुषेचयेत् लाश्रौ ८, ८, ३.
‡अनुषिञ्चयात् वाधुश्रौ ३, १०५ : ३.
अनु/षि (<सि)ष् > ‡अनु-सेषि-
षत्- -षत् ऋप्रा ५, ३०.
अनु/षू (<स् [प्राणिप्रसवे])
*अनु-षू- > *अनुषू-क- > आनु-
षूक^j- पावा ५, ४, ३६; -‡कम्
वीश्रौ १३, २७ : ५; ९; हिश्रौ
२२, ४, १३; १४; -कस्य हिश्रौ
२२, ४, १३; -काणाम् कौस्
१६, २८^k.
‡अनु/ष्टु (<स्तु), अनुष्टुवन्ति
ऋप्रा ५, १२; शुप्रा ३, ७१;
अनु(ष्टुवन्ति) शुप्रा ४, ७८.

अनु/ष्टु (<स्तु)म्, ‡अनुष्टोमति
या ७, १२.
अनु-ष्टुम्^l- पाग ४, १, ८६;
-ष्टुक् वीश्रौ १९, ७ :
४९^m; वाधुश्रौ ४, ४६ : ४;
८५ : ४; १००ⁿ : ५; ११५ :
१५; भाशि ३२; -ष्टुग्भ्यः
आपश्रौ १४, ३, ४; वैश्रौ १७,
३ : ४; -ष्टुग्भ्याम् वाधुश्रौ ४,
११५ : ७; वैश्रौ ७, ५ : २;
-‡ष्टुष् आश्रौ ६, २, ९; ८, ३,
२३; ३२; काश्रौ २, १, १८^o;
आपश्रौ ३, १८, ४^o; वीश्रौ ३,
२३ : १९^o; भाश्रौ ३, १४, २^o;
माश्रौ ५, २, १५, २^o; वाश्रौ १,
१, ५, २^o; वैश्रौ १८, २० : १८^o;
हिश्रौ २, ८, १^o; चव्यू ४ : २४;
शुया ७, १२०^o; -ष्टुप्सु हिश्रौ;
-ष्टुष्मिः माश्रौ; -ष्टुमः आश्रौ;
आपश्रौ १४, १९, १^o; वैश्रौ
२१, ५ : ७^o; हिश्रौ १५, ५,
१७^o; -‡ष्टुभम् आश्रौ;
-ष्टुमा आश्रौ; आपश्रौ २१,
९, ९^o, -ष्टुमाम् आश्रौ ८,
१२, २; -ष्टुभि द्राश्रौ; -‡ष्टुभे
काश्रौ; -ष्टुमौ आपश्रौ १९,
१८, ६.
आनुष्टुम^l- पा ४, १, ८६;
-भः शाश्रौ; -भम् आश्रौ;
-भस्य निस् ३, ४ : १; -भाः
आश्रौ ६, २, ९; -मात् शाश्रौ

- a) द्वस. > षस. > चस. । b) षस. । c) वैप १ द्र. । d) वस. । e) नाप. (प्रदेश-विक्षेप-) ।
व्यु. ? । f) अनुषण्ड- इति पासि.; नूषण्ड- इति पागम [पक्षे]; अणु-, खण्ड-, अण्ड- इति पाका. पासे. ।
g) पासे. वैप १ परि. अनुषिञ्चते शौ ६, ११, २ टि. द्र. । h) षत्वाऽभावः उंसं. । i) तु. संस्कर्तुः टि. ।
j) वैप १, परि. च द्र. । k) आनुशूक- > -कानाम् इति पाठे ञ् <> षू इति वावि. द्र. । आनुसूक-
इति मूको. PW. च । l) पासे. वैप १ परि. अनुष्टुप् का २, ३, २ टि. द्र. । m) पासे. वैप १ परि. अनुष्टुमः
तै ७, ५, ५, १ टि. द्र. । n) अनुष्टुभम् इति C. शोधः ।

९, १९, ९; -भानि शांश्रौ १४, १९, ३; -भाम्याम् शांश्रौ ९, २७, ११; -भे निस् ८, ९, ३६; ऋञ् २, १०, ६०; -भेन शांश्रौ ४, १२, ५; आपश्रौ ४, ७, २^३; -भेषु जुस् ३, २ : १८; -भौ आश्रौ ४, १२, १.

अनुष्टुभी^० - भिः
वैताश्रौ २९, ८; -भीम् अप्राय २, ९.

अनुष्टुभ-ता- -तया
निस् १, १२ : ६.

अनुष्टुभौ (भ-श्रौ) णि-
ह° - हम् ऋप्रा १८, २०.

अनुष्टुप्-काण्ड-पतित^१ - तस्य
चाञ् १६ : २०.

अनुष्टुप्-कारम् आश्रौ ६, ३, १२.
अनुष्टुप्-छन्दस° - ऋन्दसः

आश्रौ ६, ३, २२; शांश्रौ १४, ३३, १८; १९; आपश्रौ १४, ३, ६; १३; माश्रौ २, ५, ३, ११; १५; वैश्रौ १७, ३ : ८;

हिश्रौ ९, ७, ३३; जैश्रौ १५ : ५; -न्दसा बौश्रौ २३, १३ : ३२; द्राश्रौ ७, १, १९; २५; २६; ३१; लाश्रौ ३, १, १९; २४; २५; ३०; वैताश्रौ १९, १७; -ऋन्दाः

आपश्रौ १९, ४, ९; बौश्रौ १७, ३८ : ८; वैश्रौ ११, ६ : ५; हिश्रौ १३, ८, ४२.

अनुष्टुप्-त्रिष्टुब्-उणिग्-जगती-
पङ्क्ति-बृहत्स्य (ती-ञ्) तिच्छ-
न्दस^१ - न्दांसि अञ्भू ३^६.

अनुष्टुप्-त्रिष्टुब्-ग(र्भ>)र्भा^०-
-र्भा अञ् ११, १०.

अनुष्टुब्-ग(र्भ>)र्भा^०-
-र्भा अञ् ११, १०.

अनुष्टुब्-ग(र्भ>)र्भा^०-
-र्भा अञ् ११, १०.

अनुष्टुब्-ग(र्भ>)र्भा^०-
-र्भा अञ् ११, १०.

अनुष्टुब्-ग(र्भ>)र्भा^०-
-र्भा अञ् ११, १०.

अनुष्टुप्-त्रिष्टुब्- -ष्टुभौ शुञ्
२, ४४३.

अनुष्टुप्-पङ्क्ति^१ - -ङ्क्तिः ऋप्रा
१८, २२.

अनुष्टुप्-प्रभृति- -ति द्राश्रौ ८,
३, २२; लाश्रौ ४, ७, ३.

अनुष्टुप्-विराट्-त्रिष्टुब्-
-ष्टुभः शुञ् ३, २६.

अनुष्टुप्-संयोजन° - -नाः निस्
९, ६ : ९.

अनुष्टुब्-अर्थ^१ - -र्थे निस् ३, ४ :
११.

अनुष्टुब्-उपरिष्टाद्बृहती^१-
-स्यौ शुञ् २, ४२९.

अनुष्टुब्-उणिक्-त्रिष्टुब्-ग-
(र्भ>)र्भा^० - -र्भा अञ् ५, ६.

अनुष्टुब्-उणिग्-ग(र्भ>)
र्भा^० - -र्भा अञ् ९, ५^२.

अनुष्टुब्-उणिग्-बृहती-प-
ङ्क्ति^१ - -ङ्क्तयः अञ्भू ३.

अनुष्टुब्-ग(र्भ>)र्भा^० - -र्भा
ऋञ् १, ५, ७; २, १, १८७; शुञ्

५, ३०; अञ् १, ३५; ३, १८; ४,
११; १५; ३८; ५, २७; ९, ८;

१०, ११; ११, १; २; ४; १२, १^४;
२; ३; १३, ३; १८, ४; १९,
२०; ४७; ऋप्रा १६, ३६; -र्भाः

अञ् १९, १९.

अनुष्टुब्-गायत्री^१ - -स्यौ ऋञ्
१, ११, ६.

अनुष्टुब्गायत्री-कारम् आश्रौ
६, २, ८.

अनुष्टुब्-जगती^१ - -ती ऋप्रा
१८, १७.

अनुष्टुब्-बृहती^१ - -तीषु आश्रौ

१०, २, २१; -स्यौ शांश्रौ ७,
२७, ३०; ऋञ् २, ६, १५; शुञ्
४, ४८.

अनुष्टुम्-मात्रा- -त्राम् द्राश्रौ
९, ३, १९; लाश्रौ ३, ७, ६.

अनुष्टुम्-सुख° - -खाः ऋञ् १,
११, ६; २, ८, ६८; ७४.

अनु-ष्टोभन- -नात् या ७, १२.
अनु-उष्ट्र° - -ष्ट्राः बाध १४, ४०.

अनु > ष्टा, > तिष्ठ, अनुतिष्ठति वैगृ
२, ८ : १३; ३, ४ : १४;
४, २ : १०; कौस् ४७, ४१;
आपध २, ७, ७; हिध २, २,
२८; अनुतिष्ठन्ति आपध १,
२२, ४; हिध १, ६, ४; अञ् १९,
४८^१; अनुतिष्ठेत् वैगृ २, १२ :
२७; ६, १८ : ८; अनुतिष्ठेत्
वाश्रौ १, १, ५, ३; बाध १२,
४७^३; शंघ ३९९; ४००; आपध
१, २२, १; ५; ८; बौध १, २,
३९; हिध १, ६, १; ५; ८; २, १,
१०२.

ऋनु...तस्थिम या ६, ६६.

अनु-तिष्ठत्- -ष्ठन् बाध १, २;
आपध १, २३, ६; हिध १, ६,
१४.

अनु-ष्टात्- -ता कौस् ८१, ४०; ४८.

अनु-ष्ठान- -नम् वैगृ १, १ : ६; गौध
८, १५; -नात् बाध १९, १.

अनुष्ठानी^१ - -नीभिः कौस् ८१,
४२; -न्यः कौस् ८१, ४३.

अनु-ष्ठित- -तः अप १३, २, ९;
-तम् माश १२, ७.

अनुष्ठित-कर्म-प्रयोग-भेद^१-
-दान् मीस् १२, १, ४२.

a) सपा. कौस् ३, १० जागतेन इति पाभे. । b) वैप १, परि. च द्र. । c) विप. (प्रगाथ-). कस. ।

d) विप. । षस. > सस. । e) विप. । बस. । f) द्रस. । g) पङ्क्तिर्बृह° इति पाठः ? यनि. शोघः ।

h) विप. । बस. पूष. द्रस. । i) मलो. कस. । j) चस. । k) नाप. (ऋग्-विशेष-). l) कस. > षस. > षत. ।

†अनु-प्ठु^a- -प्ठुया या ५, १५;
-ष्ट्या आश्रौ ३, ३, १; शाश्रौ
५, १७, ६.
अनु-ष्टेय, या- -यः वैध १, ११, १२;
१३; -यम् क्रप्र १, ३, ३; मीस् २,
४, ३; -या बौध २, २, ७२.
अनु-उप्पन्^b- -प्पा बौच १, ९४.
अनु/प्यन्द पा ८, ३, ७२.
†अनु-प्व (<स्व) घ^c- -घम् या ४,
८५.
अनु/ष्वा (<स्वा)द् > अनु-प्वात्त-
-त्तभ्यः भाश्रौ ८, १८, १८†.
अनुसं-यत्- अनुसम्/इ द्र.
अनुसं✓रभ्, †अनुसंरभस्व हिग्
१, ५, ११^d; अनुसंरभेथाम् वाश्रौ
१, ३, ७, ७^e; †अनुसंरभध्वम्
बौश्रौ ३, २७ : ३२; हिश्रौ ९,
५, ४३.
अनु-संवत्सर^e- पाग ७, ३, २०;
-रम् आपश्रौ २२, २०, १०;
हिश्रौ १७, ७, २१.
आनुसांवत्सरिक- पा ७, ३, २०.
अनुसं✓वृ(वरणे) > अनुसं-वरण-
(> आनुसांवरण- पा.) पाग ७,
३, २०.
?अनुसंवृजिन^f- -नम् हिग् १, १३,
१६.
?अनुसंवृजिना^g हिग् १, १२, १५^h.
अनुसं✓द्ये, अनुसंवेय्यस्व पाग् १,

४, १२.
अनु-सं✓व्रज्, अनुसंव्रजति भाग् २,
२३ : ४^h; अनुसंव्रजेत् आश्रौ ४,
४, ५; बौश्रौ २१, १४, १२;
१३; २३, ११ : १३; १४.
अनुसंवाजयेत् वाध २१, १-३.
?अनुसंव्रजताः^h बौग् १, २, १४.
अनुसं-व्रज्य बौश्रौ २१, २२ : ३३;
३५; गोग् २, २, १४.
अनुसं-व्रज्या- -ज्यायै बौश्रौ २१,
१४ : १२; २३, ११ : १३.
अनु-सं✓सृप् > अनुसं-सर्पम् काश्रौ
२४, ४, ४७.
अनु-सं-स ✓कृ > अनुसं-स-कृत-
-तः शंघ ११.
अनु-सं✓स्था, अनुसंस्थास्यते निस्
४, २ : ७.
अनुसंस्थापयति भाश्रौ ३, ५, ५.
१अनु-संहित^g- -तम् ऋप्रा ११,
३३; ४४; १५, ३३.
२अनुसं-हित- अतु-सं✓धा द्र.
अनु-सं✓हृ, अनुसंहरति निस् ३, १३;
४२; कौम् ६, १४; अनुसंहरेत्
बौश्रौ १३, १ : ८; २१, २ : १;
२; १५ : ३७; ३८; १९ : १७;
१८; २३, १२ : २१; २२; जैश्रौ
२६ : ८; द्राश्रौ ५, १, १९; लाश्रौ
२, ५, १५; निस् ५, ४ : २३;
५ : १६; ८, ७ : २७; द्राग् ३,

१, १९; अनुसंहरेयुः लाश्रौ ७,
६, १६.
अनुसं-हरण- -णे बौश्रौ २१, २ :
१; १५ : ३७; १९ : १७; २३,
१२ : २०.
अनुसं-हार- -रः पावा १, १, ५२.
अनु-सक्थ^e- -क्थम् लाश्रौ ८, ८, ३१.
अनु-सक्थि^e- -क्थि निस् २, ६ : ३०;
गौपि २, ७, २९.
अनु-सं✓कल्, अनुसंकालयन्ति आग्
४, २, ८^k.
अनु-सं✓क्रम्, अनुसंक्रमस्व बौश्रौ
२७, ७ : ६.
अनु-सं✓ख्या > अनुसं-ख्यात-
-ताः वाश्रौ ४, ११९ : २.
अनु-सं✓गृह्, अनुसंगृहस्व^d आग्निग्
१, १, ३ : २४.
अनु✓सच्. †अनु...सचताम् आपश्रौ
१६, २५, २; वैश्रौ १८, १८ : १;
हिश्रौ ११, ७, ४७; शुअ १,
३०९; अन्वसचन्त जैश्रौ ५ : ६;
२१ : ७.
अनुसंचिरे अप्रा ३, १, ७†.
अनु-सं✓चक्ष्, अनुसंचेत् वाश्रौ ४,
११९ : ३.
अनु-सं✓चर्, अनुसंचरति या ७, २७;
अनुसंचरन्ति बौश्रौ ३, १५ : १७;
२३; कौस् ९९, २; अनुसंचराणि
कौस् १०८, २†; अनुसंचरन्तु

a) वैप १, परि. च द्र. । b) तस. उप. = वरिण- । c) वैप १ द्र. । d) सपा. अनुसंरभस्व <>
अनुसंगृहस्व इति पाभे. । e) अस. वा. किति. । f) पाठः ? अन् + *उपसंभुजिन- ([उप-संभुक्-] < उप-
सम्/भुज् 'भोजने' कर्मणि) > तस. अन्-उपसंभुजिन- > -नम् ([अनुच्छिष्टम्] इजम्) इति शोधः
[वैतु. C. Old. अनुसं-व्रजित- > -तम् इति शोधः इति (वैतु. Böht. LZDMG ५२, ८४) ?] ।
g) पाठः ? (अनु-सं✓व्रज् > कर्तरि) अनु-संव्रजिन- > -नः > नैप्र. -ना इति शोधः (तु. Böht. LZDMG ५२,
८४, बौग् १, २, १४) अनुसंव्रजनाः इति शोधः; वैतु. C. अनुसं-व्रजितृ- > -ता इति शोधः । h) ?अनुसंव्रजिना
< > अनुसंव्रजति < > ?अनुसंव्रजताः इति पाभे. । i) पाठः ? अनुसं-व्रजन- > -नाः इति शोधः
(तु. हिग्. अनुसंव्रजिना इति शोधितः पाभे.) । j) उप. = संहिता-प्रन्थ- । k) तु. PW.; वैतु. नारायणवृत्तिः
अनुः इति पृथक् अव्य. इति ।

कौसू १०३, २१; अनुसंचरेत्
आमिष्ट २, ६, ३ : ५९; बौध २,
५, ३१; अनुसंचरेरन् बौधौ २१,
२२ : २; ३; ँअनुसंचरेयम्
आपथ्रौ २२, १२, १०; हिथ्रौ
१७, ५, १८; ँअनुसंचरेम आपथ्रौ
१३, २५, ३.
अनुसं-चर- -रान् आपथ्रौ १,
६, १; वाथ्रौ १, २, १, ३३; भाथ्रौ
१, ५, १३; हिथ्रौ १, २, ६६.
अनुसं-चरण- (> आनुसांकरणिक-
पा.) पाग ७, ३, २०.
अनुसं-चरत्- -रन्तः वौथ्रौ ५, ११:
८; -रन्तम् पाग ३, १४, ६.
अनुसंचरन्ती- -न्तीः वौथ्रौ १२,
११ : ७१.
अनु√सद्, अनुसदनु सु २९, ३.
अनु-सं√तन्, अनुसंतनोति वौथ्रौ
१४, २५ : ६; ँअनुसंतनुताम्
वैताथ्रौ ७, १२; अत्राय १, ५;
अनुसंतनोतु^१ काथ्रौ ३, ८, २२;
१५, ६, १०; शुप्रा ३, ८१; ँअनु-
...संतनुहि^२ शांथ्रौ २, १२, १०.
अनुसं-तति- -त्यै हिथ्रौ १३, ७, २८.
अनु-सं√तृ, ँअनुसंतरन्तु आथ्रौ ३,
१४, १०; अनुसंतरेयुः जैग २,
५ : १८.
अनु-सं√धा, ँअनुसंधेहि वौथ्रौ ४,
२ : ३९; १०, ५१ : १९; अनु-
संधत्त अत्र ८म्.
२अनुसं-हित^३ -तौ वाधुथ्रौ ४,
१७ : ४; ६.
अनु-सम्-आ√गच्छ, अनुसमा-
गच्छति वाधुथ्रौ ४, ११४ : ४.
अनु-सम्√आप्, अनुसमापयेयुः

काथ्रौ २४, ६, २५; २५, ३, १५.
अनुसम्-आपन- -नम् काथ्रौ २४,
६, २९.
अनु-सम्√इ, अनुसमेति शांथ्रौ ४,
६, १३; ५, १४, २२; ९, २४,
९; वौथ्रौ १३, १ : १५; २५,
१३ : २; ३; २२ : ५; वाधुथ्रौ
४, ८२ : ३; हिथ्रौ १, ६, ३९;
९, ८, १४; अनु...संयन्ति वौथ्रौ
७, १२ : १६; ८, ३ : ३१; १२ :
११; अनुसमियात् शांथ्रौ ५,
६, ५; ६, ९, ११; वौथ्रौ २१,
१ : २३; १९ : १०; ११.
अनुसं-यत्- -यन् शांथ्रौ ३, १४,
१०; ५, ६, ३; १०, १५; १३,
५; १४, १२; १५; ८, १०, २;
१५, ११.
अनु-सम्√इन्ध, अनुसमिन्धते
वाधुथ्रौ ३, ९ : १७; अनुसमि-
न्धीरन् वाधुथ्रौ ३, ९ : १५; १६;
अनु...समिन्धीरन् वाधुथ्रौ ३,
९ : १८.
अनु-सम्√ई, अनुसमीयात् भाथ्रौ
६, १७, ५.
अनुसमीयते वाधुथ्रौ ४, २६^४ :
१८.
अनु-समुद्र^५ -द्रम् पा ४, ३, १०.
अनु-समे (म्-आ√इ)>अनुसमेत्य
वौथ्रौ २२, ११ : ३.
अनु-सं√पश, ँअनुसंपश्य^६ कौग
५, १, १४, आमिष्ट ३, ५, २ : ७;
वौपि १, २ : १२.
अनु-सं√पा (पाने) >पिब, अनुसं
(पिबतु) वाथ्रौ ३, २, २, २८^७.
अनु-सं√मिद्^८, अनुसंभिनत्ति

आपथ्रौ ८, ५, २०; भाथ्रौ ३, ५,
६; ८, ४, १४; माथ्रौ १, ३, ४,
५; वैथ्रौ ८, ९ : १०; हिथ्रौ २,
४, ४; ५, २, १३.
अनुसं-मिद्य आपथ्रौ ३, ५, २; वाथ्रौ
१, ३, ५, १९.
अनु-सं√भू, अनुसंभव^९ आथ्रौ ३,
१०, १६^१.
अनु-सं√भृ (=हृ), अनुसंभरति वैथ्रौ
१८, १५ : ९; १०.
अनुसं-भृ(त>)ता- -ताः आपथ्रौ
५, २६, ५; भाथ्रौ ५, १८, १;
हिथ्रौ ३, ६, ५.
अनु-सं√मृश, अनुसंमृशति वाथ्रौ
१, ५, २, १३.
अनु-सरण- अनु√स द्र.
अनु-सरस्वति^{१०} -ति वौथ्रौ २६,
२१ : ३.
अनु-सरेफ^{११} -फम् हिथ्रौ २१, २,
३४.
अनु-सवन^{१२} -नम् आथ्रौ १, १२,
२०; २, १४, ५; १८, २; ५, ४,
१; ३; ६; ५, १४; १५; ९, २,
१४; ५, ७; ११, ६, ३; १२, ८,
३८; शांथ्रौ ७, १, ३; ७; १३, ५,
१२; १५, १०; ११; १५, ४, ११;
काथ्रौ २५, १३, २५; १४, ११;
२०; २१; आपथ्रौ १२, ४, २; ८,
४; ११, ११; १६, १६; १४,
२६, २; २८, ३; २२, ७, १५;
वौथ्रौ ११, २ : २१; २१, १८ :
१७; २२ : ३०; २३, १८ : १;
१९ : ३६; २५, १६ : ९; १२;
माथ्रौ २, ४, १, ५९; वाथ्रौ ३,
२, ४, ९; वैथ्रौ १५, १३ : ६;

a) पाभे. वैप १ परि. द्र. । b) पाभे. वैप १ परि. अनु...तनुहि का २, ६, ९ टि. द्र. । c) विप. ।
कर्मणि क्तः प्र. । d) अस. वा. क्तिवि. । e) पाभे. वैप १ परि. अनुसंक्राम टि. द्र. । f) उपसृष्टस्य धा.
संबन्धने वृत्तिः । g) सपा. तैषा १, ४, ४, १० अनु, संभर इति पाभे. h) विप. । अस. उप. बस. । वा. क्तिवि. ।

हिश्रौ ८,३, ३३; १५, ६, ३०;
१७,३, १४; द्राश्रौ ३, २, २३;
४,१,२२; ५,१,१४; लाश्रौ १,
१०, १८; २, २, ९; ५, १२;
निसू ७,१ : ९; कौश्र ३, ३, ४;
काश्र ४,२०; बौश्र ३, ३, ३३;
गोश्र ३, २, ७; अप ४०, १,८;
गौध २६, १०; -नम्-नम् पाग
८,३,११०^{२५}.

अनुसवन-भक्ष^१ -क्षः बौश्रौ ७,
१७ : १० ; ३१; १८:१८; १९ :
१८; २० : २७; ८, ७ : १९; ८ :
१६; १३ : २५; १५ : १६; ११,
१३:२५; १७,४ : ११; ६:१०;
७:१०; ८:११; ९ : ११; १० :
१६; -क्षेग बौश्रौ २३, ५ : ३१;
२५, २०:२६.

अनु-साम^२ - पा ५,४,७५.

अनु-सामिधेनि^३ -नि बौश्रौ २०,
३ : १२.

अनु-साय^४ (> आनुसाय- पावा.)
पावाग ४,३,५८.

अनु-सीत^५ - पावाग ४,३,५८; -तम्
आपश्रौ १६,१९,१२; ३२,५; ६;
बौश्रौ १०, २८ : ९; २९ : ३;
५; ८; १०; १२; १४; वाधूश्रौ ४,
१९ : ४४; ४५; वैश्रौ १८, १६ :
२०; ४९; ५२; ५६; ६०; ६७,
७०; हिश्रौ ११, ६, ४४; ४६;
८, ११; तैप्रा ६, १२^६.

आनुसीत्य- पावा ४,३,५८.

अनु-सीर- (> आनुसीर्य- पावा.)
पावाग ४,३,५८.

?अनुसुम् वाश्रौ १,६,७,९.

अनु√सू (प्राणिप्रसेवे), अनुसूयन्ते
शंघ २८६.

अनु√सू (प्रेरणे), अनुसुवस्व हिश्रौ
१७,७,१०^६.

अनु-सू^७ - > आनुसुक^८ - पावा ४,२,
६०.

अनु-सूत्र^९ - त्रम् कौसू १९,२३.

?अनुसूयताम्^{१०} सु ३१,८.

अनु√सू, अनुसरति वाधूश्रौ ४,
११८ : ३.

अनु-सरण- -गेन विध ३५,६.

अनु-सारि(न् >)णी- -णी माशि
९,४^१; -ण्यः अप ५८^२,४,१०.

अनु-सूत-> त-व(त्स >)स्ता^{११}-
-त्सा माशि ९,२.

अनु-सूत्य या १२,१०.

अनु√सूज्, अनुसूजते हिश्रौ १८,
४,६८^३; अनुसूजति माश्रौ १,५,
३, १६; ४, ६; १५; अनु...सूजे
वाधूश्रौ ३,२९ : २^४.

अन्वसूज्यत निसू ४, ४ : ७.

अनु-सूष्ट- -ष्टम् माश्रौ ५, २, १०,
२५; -^५ष्टान् आपश्रौ २०, १४,
१०; हिश्रौ १४,३,१७.

अनु-सूष्टि- -ष्टिम् माश्रौ ५,२,१०,
२२.

अनु-सूति L,ष्टि^६-^१ (> आनुसूति-
L,ष्टि) नेय-पा.) पाग ४, १,

१२६^१.

अनु√सूप्, अनुसर्पति शाश्रौ ८,
१५,८.

अनु-सोम^{१२} -मम् काश्रौ १०,९,२९.

अनु√स्तन् > अनु-स्तनित- -ते
आपध १,९,२०; हिध १,३,२०.

अनु√स्तृ,स्तृ (हिंसायाम्), अनुस्तृ-
णीयात् आमिष्ट ३,७,३ : १४;
बौपि २,१,७^३.

अनु-स्तरण^{१३} -णाः शाश्रौ १६, ३,
१४; १२, १३.

अनुस्तरणी^{१४} - -णी काश्रौ २५,
७, ३७; -णीम् शाश्रौ ४, १४,

१३; आश्र ४,२, ४; कौश्र ५, ३,
२; आमिष्ट ३,५,३ : २; ८ : १;

बौपि १,३ : २; ७ : ३; -ण्याः
शाश्रौ १४,२२, १७; कौसू ३६,
१५; आश्र ४,३,२०^५.

अनुस्तरणिकी^{१५} - -क्याः^{१६}

लाश्रौ ८, ८, २२; निसू २, ६ :
१९; गौपि २,७,१७.

अनुस्तरणी-कल्प^{१७} - -ल्पः

आमिष्ट ३, ५, ३ : १; बौपि १,
२ : २२; ३ : १.

अनुस्तरणी-काल^{१८} - -ले आ-

मिष्ट ३,७,३:१४; बौपि २,१,७.

अनुस्तरणी-प्रतिगृहीता^{१९} -

-तायै बौश्रौ २४, ३१ : ७.
अनु-स्तरण्यत्- -व्यन्तः आमिष्ट
३,५,८ : १; बौपि १, ७ : ३.

अनु-स्पन्ध^{२०} - -न्धम् बौश्रौ ६,२२:

a) सकृन्-नेऽने इति पाका.। b) तस.। c) अत्र. वा बस. वा प्रास. वा। d) अत्र. वा. क्रिवि.।

e) अत्र.। f) नाप. (ग्रन्थ-विशेष-). व्यु. ?। g) केऽणः (पा ७,४,१३) इति ह्रस्वः। h) पाठः ? अन्-

असूयत्-> -यताम् इति शोधः। i) नाप. (विद्युत्-विशेष-).। j) बस.। k) भाण्डा. प्रभृ.। l) व्यप.।

m) *स्तरणीयात् इति मैसू.। n) नाप. (यज्ञीयपशु-विशेष-).। o) नाप. (ऽप्रेतदाह-कर्मणि घातितान्-

गो-, तदुपलक्षित-कल्प-विशेष-).। वैप १ परि. द्र.। p) सप्र. ण्याः <> णिक्याः इति पाप्मे.।

q) स्वार्थिके कनि स्त्री. ङीष् उंसं. (पा ४, १, ४१)। r) षस.। s) विप. (गो-).। सस.। t) उप.

=मानार्था- रज्जु-।

१३; २०; २४ : १२; २५ : ६;
२६; १०, १९ : १०; आग्निष्ट
३, ८, १ : ३१^{१९}; बौपि १,
१५ : १०.
अनु/स्पग् > ऋअनु-पस्पशान^b-
-नम्^c बौपि १, २ : १; या १०,
२०^क.
अनु-पस्पाशयमान^d - नम् या १०,
२०.
अनु-स्पष्ट^b - ष्टः ऋप्रा ५, २७^क.
अनु/स्फुर, अनु...स्फुरान् ऋप्रा ४,
७३^क.
अनु/स्मृ, अनुस्मरेत् आपध १, ७,
२३; हिध १, २, ८०; अनुस्मरेयुः
पाण्ड ३, १०, १७.
अनुस्मरिष्यन्ति अप २३, १४, २.
अनुस्मर्यते आपध १, २, ५; हिध
१, १, ३८; अअ ११, २.
अनु-स्मरण- -णम् आग्निष्ट ३, ७,
४ : ४; बौपि २, ३, ९.
अनु-स्मरत्- -रन् अप १, ४२, ३;
बौध २, १, १६; विध ३२, १५.
अनु-स्मृ(त>)ता- -ता ऋप्रा ११,
३२.
ऋअनु-उस्त्र-यामन्^b - णे ऋप्रा ५,
५४.
अनु/स्रु > अनु-स्रावयत्- -यन्
हिथ्रौ ३, ७, ६६.
अनु-स्रोतस^{११} - सम् कौष्ट ५, ४, २;
आपण्ड १४, १४; भाण्ड १, २२ :
९; २, ७ : २.
ऋअनु-स्वध^१ - धम् हिथ्रौ २, ७, ३८;

४०.
अनु/स्वन् > अनु-स्वान^१ - नः
आशि ८, १२.
अनु-स्वाध्याय^१ - यम् आश्रौ १०,
८, ६.
अनु/स्वृ > अनु-स्वार^b - रः अप
४७, १, १०; २, ३; ऋप्रा १, ५;
२२; १३, २२; २८; १८, ३९; शुप्रा
४, १११; १५०; ८, २१; तैप्रा १,
३४; १५, ३; २०, ६; कौशि ७९;
माशि १३, ६; पाशि ५; १८; शैशि
१४; २५; ३६; ३८; २७५; याशि
२, १; ४२; ४४; ४५; पा ८, ३, ४;
२३; पाप्रवा १, ४; -रम् आश्रौ
१, २, १८; शाश्रौ १, २, ११;
ऋप्रा ४, १५; १३, १५; ३२; ३६;
१४, ५४; शुप्रा ४, १; ऋन ४,
४, १२; माशि ८, १०; ९, ७;
आशि १, २०; -रस्य ऋप्रा १३,
३२; याशि २, ४३; पा ८, ४,
५८; -राः माशि ८, ११; -रात्
शुप्रा ३, ५७; -रे तैप्रा १७, ३;
शैशि ४९; याशि १, ६४; -रेण
शुप्रा ३, १३२; -रौ ऋन २,
३, ३.
अनुस्वार-पवर्ग^१ - र्गयोः शैशि
५१.
अनुस्वार-यम^१ - माः आशि १,
१९; -मौ माशि १३, ६.
अनुस्वार-यम-त्रिसर्जनीय-जिह्वा-
मूलीयो(य-उ)पध्मानीय^१ - याः
शुप्रा १, ४१.

अनुस्वार-विसर्जनीय^१ - यौ
ऋप्रा १, २४.
अनुस्वार-व्यवाय-वचन^१ - नात्
पावा ८, ४, २.
अनुस्वार-स्वरभक्ति^१ - -क्तयोः
तैप्रा २, १९.
अनुस्वार-स्वरा(र-आ)द्य^१ - -द्यः
शैशि ८६.
अनुस्वारा(र-आ) गम^१ - स्व-
-स्वात् शुप्रा ५, ४४.
अनुस्वारा(र-आ) गम-वचन^१ -
-नात् पावा ७, ४, ८५.
अनुस्वारा(र-अ) भाव^१ - -वे
पावा ८, ४, २.
अनुस्वारो(र-उ) त्तम^१ - -माः
तैप्रा २, ३०; -मेपु तैप्रा १७, १.
अनुहरत्^१ - (> आनुहारति- पा.
[पाण्ड २, ४, ६१ > आनुहारतायन-
पा.] पाण्ड ४, १, ९६; ७, ३, २०.
अनु/हा(गतौ), अनु(जिहते) आश्रौ
४, ७, ४^१; ऋअनु(अजिहते)
बौश्रौ १३, १३ : २; हिथ्रौ २२,
३, २.
ऋअनु-हाय बौश्रौ १४, ७ : २४;
२६, ७ : २०; २१; वाधूश्रौ ४,
१०२ : १६.
अनु/हु, अनुहूयन्ते आपश्रौ १३,
८, ७.
अनु/हु^१, अनुहरन्ति आपश्रौ ११,
१७, १; १५, १३, ७; भाश्रौ १०,
१३, ११; वैश्रौ १४, १५ : ८;
हिथ्रौ २४, ६, ३; आपण्ड ५, १३;

a) °न्याम् इति पाठः ? यनि. शोधः (तु. बौपि.) । b) वैप १, परि. च द्र. । c) पाभि. वैप १ परि.
अनुपस्पशानः टि. द्र. । d) = अनुपरण° । णिजन्तात् यद्बलुन्तात् शानच् प्र. (वैतु. र.र. दु. धा. बन्धने वृत्तिः) ।
e) समासान्तष् टच् प्र. उत्सं. (पा ५, ४, १०७) । f) अस. वा. क्विवि. । g) पाक्षिको घञ् प्र. (पा ३, ३, ६४) ।
h) नाप. (पारिभाषिक-संज्ञा-) । i) द्रस. । j) द्रस. उप. = कुं, लुं, गुं, घुं इत्येते चत्वारो वर्णाः । k) नृस. > षस. ।
l) विप. । बस. पूर. द्रस. । m) षस. । n) द्रस. उप. = र्गाणां पञ्चम- । o) व्यप. (ऋषि-विशेष-) । व्यु. ? ।
p) °नु इति पाठः ? यनि. शोधः (तु. ऋ ६, १८, १५) । q) पावा १, ३, २१ इत्यत्र परामृष्टः द्र. ।

हिय १, २२, २; हिपि २ : ९; अनु (हरन्ति) बौध्रौ १, १८ : १७; १८; ५, ४ : ३^२; ९ : ३^२; अनुहरेत् आमिष्ट ३, १०, ४ : ५; अनुहरेयुः भाध्रौ ६, ६, १३^२; द्राध्रौ १०, ४, १^२.
 अनुहरण- -णम् काध्रौ १४, १, १६.
 अनु-हृत- -ताः आमिष्ट ३, ६, ४ : २.
 अनु-हृत्य माध्रौ ५, २, ३, ४.
 अनुहोड^b- (> आनुहौडिक- पा.) पाग ७, ३, २०.
 अनु-होम^c- -माः काध्रौ २३, २, १७; -मान् वैताध्रौ १९, १, २.
 अनु/ह्ने> †अनु-ह्व^d- -वम् आपमं १, १३, ५; बौध्रौ ४, २, ११; अप १, २६, ४.
 †अनु-हृत- -तम् आपमं १, १३, ६; बौध्रौ ४, २, ११.
 †अनु-हृत्य- -यः^e आपमं २, २२, ९; भाग्य २, २७ : २.
 अनुक^f- -कम् आध्रौ १२, ९, ७; काध्रौ १७, ८, २^६; १०, १७, ११, १०; -के काध्रौ १६, ७, २२; १७, २, १४; १६; शुभ्र ४, २०४; -केषु काध्रौ १७, ९, २; १२, १.
 अनुक-ज- -जान् अप ६८, १, ५३.
 अनुका(क-अ)न्त^h- -न्तात् काध्रौ १७, ६, ५; -न्ते काध्रौ १७, १२, १३; १६; -न्तेषु काध्रौ १७, ३, ११; ६, २; ८, २२; १०, १; १२, ४.

†अनुक्थ^d- -क्यम् अप्रा ३, ४, १; -क्यात् आपमं १, १७, २.
 अनु-ऊकार^f- -रात् तैप्रा ४, ५२.
 अनु-काश- अनु/काश् द.
 अनुक- , अनुचान- अनु/वच् द.
 अनुची- , °चीन- प्रभृ. अन्वच्, ञ्च् द.
 अनुच्छि(नु-उद्/प्रि), अनुच्छयति बौध्रौ ४, १ : १९; ६, २ : २; बौध्रौ २, ४, १०.
 अनुच्य- , °च्यमान- अनु/वच् द.
 अनु-ऊ(ढ>)ढा^l- -ढा कप्र १, ६, १४; -ढाः विध १८, ३५; -ढानाम् शंध ३४९; विध १५, ३१; -ढायाम् शंध ४०१.
 अनुढ-भार्थ^l- -र्थः शंध ३४९.
 अनुढा-पुत्र^m- -त्रान् विध २२, १०.
 अनु(नु-उद्>)त्/कम्>अन्त- क्रम्य द्राध्रौ १, २, २९; लाध्रौ १, २, २२.
 अनुत्था(नु-उद्/स्था),> लिष्, अनुत्तिष्ठत् आध्रौ ४, ७, ४; जैध्रौ ११ : २३; आपध १, ६, ३१; हिध १, २, ५४.
 अनुत्-थाय आध्रौ ४, १०, ७; बौध्रौ १४, १९ : १८; माध्रौ ६, १, ७; आपध १, ६, ७; ३५^k; १७, ३; हिध १, २, ३२; ५, ३५.
 अनु(नु-उद्>)त्/पद्, अनुत्पद्येते आपध १, २०, ३; हिध १, ६, १७; अनुत्पद्यन्ते आपध १, २०, ३; ४; हिध १, ६, १७; १८.

अनु(नु-उद्>)त्/सञ्ज्>अन्त- सक्त- -क्तम् हिध्रौ ३, ८, ६.
 अनु-ऊ(<उ)त्सर्ग- -र्गः आपध २, २१, ४; हिध २, ५, ११३.
 अनु(नु-उद्>)त्/सृज्, अनुत्सृजति बौध्रौ १०, ३४ : २; ६; १०; १४; १८; हिध्रौ ४, २, ५१; अनुत्सृजन्ति हिध्रौ ८, ७, ५३^l.
 अनु(नु-उ)दक^m- -कम् वाध्रौ १, ६, ७, ३५.
 अनु(नु-उ)द्-आ/ह>अनुदा-हृत्य आपध्रौ ९, ६, ४.
 अनु(नु-उ)दि(द्/इ), अनुदियासम् गोग् ४, ६, ११.
 अनु(नु-उ)दे(द्-आ/इ), †अनुदेहि आपध्रौ १३, ३, १ⁿ; काध्रौ ५, ४, ७; १८, ३, १७.
 अनु(नु-उ)द्/गृह्>अनुद्-गृहणत्- -ह्रन्तः काठध्रौ ९१.
 अनु(नु-उ)द्/दिश>अनुद्-दिश्य वैग् ५, १५ : १८ⁿ.
 अनुद्-देश- -शः शुप्रा १, १४३.
 अनुद्-देश्य- -श्यम् बौध्रौ २४, १३ : ४.
 अनु(नु-उ)द्/द्रु, अनुद्द्रवेत् आपध्रौ ९, ७, १; १०; ९, ६; माध्रौ ९, ९, ५; १०, ८; हिध्रौ १५, ३, ५.
 अनु(नु-उ)द्/घा (<हा L गतौ J) अनुजिहीते हिध्रौ १३, ५, २४; अनुजिहीष्व बौध्रौ १२, ९ : २७ⁿ.

a) पामे. पृ ९२ n द्र. । b) अर्थः व्यु. च? । c) विप. (पुरोडाश- [वैतु. BW. नाप.]) । बस. वा प्रास. वा । d) वैप १, परि. च द्र. । e) पामे. पृ १८१ i टि. द्र. । f) बप्रा. । नाप. (पृष्ठवंशास्थि- [आध्रौ.], वेद्याः पृष्ठदेश- [काध्रौ.]) । व्यु. ? । वैप १, २२२ l टि. द्र. । < अनु/कै इति कैयटनागेशौ (तु. त्रिपुरुषानुक- पाम.) । g) वा. क्वि. । h) षस. । i) विप. । बस. । j) विप., नाप. (अविवाहिता-स्त्री-) । तस. उप. <√वह् । k) पामे. पृ १७३ j टि. द्र. । l) अनुत्सृष्ट इति पाठः? यनि. शोषः (तु. सप्र. आपध्रौ १२, २५, २ अद्युत्सृजन्तौ इति पामे.) । m) अस. वा. क्वि. । अनु^o इति पाठः? यनि. शोषः (तु. मै ३, १०, ७) । n) सपा. माध्रौ २, ४, ४, १८ उपकल्पयस्व इति पामे. ।

अनू(नु-उ)द्/घृ (<ह) > अनूद्-
घृःय^a -त्यः बौश्रौ १३, ७ : १४;
वैश्रौ २०, १९ : १.

अन्-ऊद्भासिन्^b -सि आपध १,
३०, १२; हिध १, ८, १२.

अनू (नु-उ) द्/यच्छ् (यमने),
अनूद्यच्छन्ते काठश्रौ १३८; बौश्रौ
७, १७ : ८; २८; १८-१९ :
१३; २० : २१; ८, ७ : १६;
८ : १३; १३ : २२; १५ : १४;
११, ८ : १९; १३ : २१; १२, १३ :
१६; १७, ४ : ७; ६ : ७; ७ :
८; ८ : ९; ९ : ८; १० : ११.

†अन्-ऊन^c -नः आपमं १, १३, १;
हिग्य १, २५, १; -नम् आश्रौ ३,
३, १; शाश्रौ ५, १७, ६; वैश्रौ
११, ५ : ७; अप्राय ३, ४; -नाय
कौसू १२२, २.

अनून-प्र(ज्ञा >)ज्ञ^d -ज्ञात् अप १,
४६, १.

अनू(नु-उद् >)न्/नी, अनून्नयति
आपश्रौ १४, ३, ११; †अनून्नय
काश्रौ १०, ६, २०; आपश्रौ १३,
१४, ११; १४, १, ७; वैश्रौ १६,
१८ : २; †अनून्नयध्वम् बौश्रौ
७, १३ : ६; १८-२० : १; ८, ४ :
१; ८ : २४; ५२ : १२; १४ :
२९; ११, १३ : १२; १४, २५ :
१३; २१; ३१; १७, २ : ८; ६-
१० : १; वैश्रौ १५, २७ : १२;
३८ : ५; १६, ४ : १०; १३ :
११; हिश्रौ ८, ७, १; ९, २, ५;

३, ४६.

अनूप^{a,d} - पा ६, ३, ९८; पाग ४, २,
१३३; १३४; ८, ४, ३९; -†पाः
या २, २२४; -पानाम् अप
६८, ५, ११; -†पे लाश्रौ ७, ९,
८; १०; निस् १, १ : १६; या
५, ३.

आनूप- पा ४, २, १३३; -०प
आश्रौ १२, १०, ८; आपश्रौ २४,
५, १५; १६; बौश्रौ प्र ५ : ४; हिश्रौ
२१, ३, ७^e; -पः साअ १, १०;
-पम्^f निस् ३, १० : २.

आनूपो(प-उ)पक्र(म >)

मा^g -मा द्राश्रौ ८, २, १; लाश्रौ
४, ६, १.

आनूपक- पा ४, २, १३४.

अनूप-वत् आपश्रौ २४, ५, १५;
१६; बौश्रौ प्र ५ : ४; हिश्रौ २१,
३, ७^e.

†अनू(प्य >)प्या^h -प्याः माश्रौ
६, १, ५, २२^f; कौग्य ५, ५, ६^h;
काग्य २५, ४; वाग्य ४, ६^h.

अनू(नु-उ)प/धा, अनूपदधाति
आपश्रौ १६, २४, १०; बौश्रौ १०,
३२ : ३; ३८ : ३; ४० : ३; ४;
४१ : १४; ४४ : १५; माश्रौ ६,
२, १, २४; वैश्रौ १८, १७ : ४५;
१९, २ : ६; ७; हिश्रौ १२, १, ४;
५; अनूपदधीत वाश्रौ २, २, १, ५.
अनूपधीयन्ते माश्रौ ६, २, १, ३-६

अनूप-धाय आपश्रौ १७, १, ३; ४.

अनू(नु-उ)प/घृ, अनूपधारयित् द्राश्रौ

५, १, २; लाश्रौ २, ५, २.

अन्-ऊपमथित^b -तान् कौसू ४७,
३३.

अनू(नु-उ)प/घृ > अनूप-घृक्षम्
माश्रौ २, १, १, ३०.

अनू(नु-उ)प/यज्, अनूपयजति भाश्रौ
७, २१, ११.

अनू(नु-उ)प/विश्, अनूपविशन्ति
आश्रौ ५, ३, २४; बौश्रौ ७, ११;
१२; अनूपविशेताम् लाश्रौ २,
४, ७; अनूपविज्ञेयाताम् द्राश्रौ
४, ४, १४.

अनू(नु-उ)प/दिल्प्, अनूपदिल्-
प्यति बौश्रौ १, १५ : २७.

अनूप(नु-उ)प/सद् > अनूप-
सीदत् -दत्तः आपध २, २१,
६ⁱ.

अनू(नु-उ)पसद्^k -दम् काश्रौ २३,
२, १४; आपश्रौ १६, ३५, ८;
१७, २६, ५; २१, ४, ११; २३,
११, ४; माश्रौ ६, १, ५, २७;
वैश्रौ १४, ३ : १५; १९, १ :
१६; हिश्रौ ७, ४, २७; ११, ८,
२५ⁱ; १२, ८, १९ⁱ; १६, १,
४४.

अनू(नु-उ)प/स्था, अनूपतिष्ठते
आपश्रौ २०, १७, ११; बौश्रौ
१५, ५ : ९; २८ : २७; १६,
२० : ११; २२ : २; अनूपति-
ष्ठन्ते बौश्रौ १६, २० : १३.

अनूपा (नु-उप-आ) /कृ (करणे),
अनूपाकरोति वाश्रौ ३, ८६ : ८.

a) वैप १, परि. च द्र. । b) विप. । तस. उप. उद् उपा इत्येतयोः यथायथं वावि. द्र. । c) विप. ।

बस. । d) नाप. (देश-विशेष-), व्यप. (ऋषि-विशेष-) । e) नाप. (साम-विशेष-) । तेनदृष्टमित्यर्थे अण्
प्र. (पा ४, २, ७) । f) विप. । बस. पूष. =सामन्- । g) पाभे. वैप १ परि. काठ २, १ टि. द्र. । h) नृप्याः
इति पाठः? यनि. शोषः (तु. सपा. तैत्रा ६, ४, १ अनूक्याः इति पाभे.) । i) नृप्याः इति पाठः ?
यनि. शोषः । j) पाभे. पृ १८४ & द्र. । k) अतः समासान्तष् टष् प्र. । वा. किवि. । l) अणु इति
पाठः? यनि. शोषः ।

अनु(नु-उ)पास्ते^a या १२, ३४.

अनूपे (नु-उप/इ), अनूपेयात् द्राश्रौ
२, २, १३; लाश्रौ १, ६, १२;
अनूपेयाताम् द्राश्रौ ९, ४, २^b;
१०, १, ५; लाश्रौ ३, ७, १०; ९,
६; ७, ६, १५.

अनु-बन्ध-^c, न्ध्य, न्ध्या- प्रभृ. अनु
✓बध्, न्ध् द्र.

अनु-याज- प्रभृ. अनु✓यज् द्र.

अ(नु>)नू-राध, धा^c -घा वाश्रौ १,
५, १, ५; -घा: माश्रौ ५, १९, १;
वैश्रौ १, १९:१२; हिश्रौ ३, २,
४; ६, ६; तैप्रा ३, ७^f; -घायाम्
आमिष्ट ३, २, १:२; -घासु जैष्ट
१, १९:१४; -धेभ्य: बौश्रौ २८,
४: १०; वैष्ट ३, २०:७; -धेषु
माश्रौ ५, १, १८; हिष्ट २, १४,
३; -धै: हिष्ट १, २७, ९.

अनूराधा-प्रभृति- ति बौश्रौ १०,
४६: २०.

अनूराधा-श्रविष्ठा-भरणी^d -णीषु
अप १, ३३, ६.

अनु-ऊरु^e -रु द्राश्रौ ९, १, ५;
लाश्रौ ३, ५, ५.

अनु-ऊर्ध्व-कर्मन्^f -र्मणि पा १, ३,
२४.

अनु-ऊर्ध्व-गामिन्^g -मिन: शंघ
३७७: २३.

अनु-ऊर्ध्व-ङु^h -ङु: कौष्ट १, ६, ७;
शांष्ट १, १०, ८.

अनूपण्ड- अनु-षण्ड- द्र.

अनु-ऊषरⁱ -रम् बौश्रौ २५, ५: २;
हिश्रौ १०, १, २१; आष्ट २, ७,

२^j; आमिष्ट ३, ५, ५: १; बौपि
१, ४: १; हिपि १: ३; गोष्ट
४, ७, ८.

अनु-ऊष्म-पर^k -रे ऋप्रा ४, ३१;
शौच २, २५; -रेषु शुप्रा ४, ८;
शौच २, २६.

अनु-ऊष्म-वत्^l -वति तैप्रा ३, १४^l.

अनु-ऊह^m -हेन शाश्रौ ५, १९, ४.

अनु-ऊहाⁿ -ह्य: माश्रौ ५, २, १३, २;
-ह्यानि आश्रौ ३, २, २०; माश्रौ
५, २, ९, ७.

अनृक्षर^o > आनृक्षरायण- ण:
बौश्रौ प्र ४७: ५.

अनृक्षर(र>)रा^p -रा आपश्रौ
१६, १७, १७; हिश्रौ ११, ६, २१;
आपमं २, १५, २; १८, ८; भाष्ट
२, २: १७; ४: १४; हिष्ट २,
१७, ९; या ९, ३२^q; -रा: आपमं
१, १, २; कौष्ट १, २, १; शांष्ट
१, ६, १; आमिष्ट १, ५, १: १;
६, १: ५; काष्ट २५, १; बौष्ट
१, १, १५; वाष्ट १०, ७; जैष्ट
१, २०: ३; कौसू ७५, १२: ७७,
३; ऋअ २, १०, ८५; वृदे ७,
१३१; अअ १४, १.

अनु-ऋगा(ग्-आ)वान^r -नम्
आश्रौ ५, ९, २२.

अनृक्ष^s -ऋचि निस् २, २: २३;
८: २६; ३०.

अनृक्ष^t -ऋक् वाध ३, ३; शंघ
२०१.

अनृक्ष^u -च: कप्र ३, ८, ११;
माशि ३, ४; याशि १, ४०:

-चम् आपश्रौ १७, १२, ११^v
माश्रौ ६, २, ४, ९; वाश्रौ २, २,
३, १३; वैश्रौ १९, ६: ६२.

अनृक्ष^w -जवे वाध २, ८; विध
२९, ९; या २, ४.

अनृक्ष^x > ण-काम- म: अअ
६, ११७.

अनृक्ष^y -ण: बौश्रौ २, ११:
२५; ४, ११: १०^f; माश्रौ २,
५, ५, १८^f; वाश्रौ ३, २, ७,
४५^f; ८, ३^f; वैष्ट २, १८:
१५; ३, ५: १५; अप १, ४९, ६;
वाध ११, ४८^f; शंघ २८५;
बौध २, ९, ५; वैध १, ४, ५;
तैप्रा ११, १७^f; -णस्य वैष्ट ५,
१२: १; बौध ४, ८, १०; -णा:
आपश्रौ १३, २२, ५^f; वाश्रौ
४, ११: १०; १७; १८^f; १९;
माश्रौ २, ५, ५, २२^f; बौष्ट ४,
४, ९^f.

अनृण-ता- -ताम् शंघ २८२.

अनु-ऋत्^z -ऋत: पा ८, २, ८६.

अनु-ऋत्^{aa} -पाग ४, ४, ६२; -तम्
आश्रौ १२, ८, ८; काश्रौ २२,
८, ८; आपश्रौ; वाध १६,
३३; ३६; ३०, १; आपध १,
२६, ३; २, १८, ३; बौध १, १०,
३२; विध ८, ४०; ७१, ७३; हिध
१, ७, १४; २, ५, ५५; गौध २३,
३०; ३२; आज्यो १०, ५; -तात्
शाश्रौ ४, ८, ३^f; आपश्रौ; बौध
३, ७, ८; ४, ५, ४; -तानि गौध
५, २५; -ते आपध २, २९, ८;

a) वैप १, १७७ a दिशा अनु: कप्र. इति ।

b) अनु^o इति पाठः ? यनि. शोषः (तु. लाश्रौ.) ।

c) नाप. । वैप १, २१२ e, परि. च द्र. ।

d) द्वस. ।

e) ङस. वा. क्वि. ।

f) तस. उप. कस. ।

g) विप. । तस. उप. उस. ।

h) विप. । तस. उप. बस. ।

i) विप. । तस. ।

j) खरम् इति पाठः लैवि. ? यनि. शोषः ।

k) विप. । बस. ।

l) तस. ।

m) व्यप. (ऋषि-विशेष-) ।

n) वैप १, परि. च द्र. ।

o) तस. वा. क्वि. ।

बोध १, १०, ३५; हिध २, ६, २१; शुभ्रा ४, ७४^१; -तेन वाध २३, ३९; विध ८, १५.

१आनृत- पा ४, ४, ६२.

अनृत-कारक-का: काध २८१:२.

अनृत-दर्शिन-शीं आपध १, ३, ११; हिध १, १, ८४.

अनृत-दूत-तस् आपधौ १८, १०, २६; हिधौ १३, ४, १२.

अनृत-भाषण-गे कप्र १, २, १३.

अनृत-वचन-नस् विध ३७, १; -ने गौध १३, २४.

अनृत-वदन-नस् वाधौ १, ४, ३, ४२.

अनृत-वाच्-वाक् वाधौ १, ६, ५, १०; शंध ३७७ : ८.

अनृत-वादिन्-दिन: वौधौ १०, १० : ४.

अनृत-सङ्कर-रे आपध १, १९, १५^५; हिध १, ५, ११७.

अनृता (त-अ) विध्यपनोद-पुतिदा-वाधान (न-ऋ) बींमपक-नाव्यु-दक-कानि काधौ ४, १०, १५.

अनृता(त-अ)भिंशंसन-नस् गौध २१, १०.

अनृतो(त-उ)द्य-द्यम् या ६, २७.

१अनृत्तु-तौ अप ६३, १, १०; ६४, ७, २; ७०^३, ७, १३; १७, ४; १८, १; ७१, ३, १; ११, १; वौध ४, १, २१.

२अनृत्तु-तु अप ७०^३, ६, १.

अनृत्तु-स्विभिः द्राधौ

१२, १, १९; लाधौ ४, ९, १३^१;

-स्विभ्यः निसू १०, १० : ८;

-स्विजे आपधौ १३, ७, ८;

वाधूधौ २, २० : ८; हिधौ १०, ४, ६८.

अनृत्तु-दीक्षित-ब्रह्मचारिन्-रिणाम् गौध १४, १.

अनृशंस-पाग ५, १, १२४; १३०.

अनृशंस-पा ५, १, १३०; -सम् आपध १, २३, ६^१.

अनृशंसा(म-अ)र्थ-थम् गौध ५, ४५^२.

अनृशंसि-(>अनृशंसीय- पा.) पाग ४, २, १३८.

अनृशंस्य-पा ५, १, १२४; -स्यम् विध ६७, ३७; हिध १, ६, १४^१.

अनृशंस्या(स्य-अ)र्थ-थम् शंध १३५.

अनृत्तु-विः वृदे ५, ५८; ५९; -पे: वृदे ८, १२९; था १३, १२.

अनृभ्या(पि-आ)नन्तर्थ-थै पा ४, १, १०४.

अनृभ्यान्तर्थ-वचन-नस् पावा ४, १, १०४.

अनृत्तु-कृत-ता: निसू २, १; १.२.

अनृत्तु-कार-रः शौच १, ४.

अनृत्तु-एक,का-पाग ४, २, ९०; -कः ऋमा १६, ६७; गौध ४, २; -कम् आधौ ५, १०, १६; वौधौ २६, २२ : २; वृदे २, ११२; अप १: ३; ऋषा ३, ९; २०; १५, १९; शुभ्रा ४, १४२; पा २, २, २४:

८, १, ३५; पावा १, २, ३९;

-कस्मिन् पावा ८, १, १२; -कस्मै

हिधौ १७, ६, ४२; -कस्य या २,

१५; तैप्रा १, २६; पावा १, २, ६४^३; ६, २, ३६; -का: गौध २८,

६; वृदे ३, २९; -कानि माधौ ५, २, ९, ५; -काम् लाधौ १०,

१९, ७.

अनेक° पा १, १, ५५; ६, ४, ८२; पावा १, १, ५०^३; ५४; ३, २,

१४६; ६, १, ९७; १६४.

अनेक-कर्मन्-मा या १, ४^३; ५; ४, १७; १९.

अनेक-काम-म: आपधौ २१, १२, ८.

अनेक-कारिन्-रिगे अरां ११, ५; अ १, ४१, ५.

अनेक-केश-शम् विध ९६, ३५.

अनेक-ग्रहण-णन् पावा २, १, १, ५; अनेक-त्व-स्वात् पावा २, ४, १.

अनेक-दर्शिन-शीं अ १, १०, १.

अनेक-वा अप २, २, ३; १९^२, ५, ३; ७०, १, २; वृद १, ४७; ३, ४४; पावा ८, १, १२.

अनेक-निवृत्ति-त्ति: मास् ४, २, १.

अनेक-पद-दात् पावा ५, २, ५९; अनृपद-प्रमङ्ग-ङ्ग: पावा १, २, ४५; २, १, १.

अनेक-पर्यन्-वतु या २, २.

अनेक-पितृक-काणान् विध १७, २३.

अनेक-प्रत्यय-प्राप्ति-त्ति: पावा ४, १, ९३.

a) कस. । b) विप. । बस. । c) वैप १, परि. च द्र. । d) =असत्य-सन्ध- । विप. । उप.

लैवि. <सङ्कर- (तु. भाष्यम्) । e) १रः इति पाठः ? यनि. शोधः (तु. हिध. हरदत्तश्च) । f) द्वस. । g) उम.

उप. ✓वद् + भावे क्यप् प्र. । h) तस. । i) विप. (फल-पुष्प-). । पैप १ द्र. । j) ऋत्विभिः इति पाठः ? यनि.

शोधः (तु. द्राधौ.) । k) विप. । बस. उप. द्वस. । l) सपा. °सम् <> °स्यम् इति पाठे. । m) विप. ।

तस. उप. तृस. । n) विप. । उस. । o) कस. । p) षस. । q) कस. > षस. ।

अनेक-प्रत्यय-समास^०—>०सा(स-
अ)र्थे— -र्थम् पावा ६, १, १५४.
अनेक-प्रस्ताव, वा^१— -वासु द्राश्रौ ५,
२, १००; —वेषु लाश्रौ २, ६, ५०.
अनेक-प्राप्ति^१— -सौ पावा २, २, ३४.
अनेक-भाव^१— -वे आश्रौ ७, ११, २६.
अनेक-रू(प>)पा^१— -पा अप ७०^३,
३२, २६,
अनेक-रोग^१—>०गिन्- -गिणः शंघ
३७५.
अनेक-वचन^१— -नम् पावा २, २, २४.
अनेक-वर्णा (र्णा-आ)देश^१— -शेषु
पावा १, १, ५०.
अनेक-विद्य-संस्थान^१— -नम् अप
५२, १, ५.
अनेक-शत-लक्षण^१— -णः अप ५२,
१६, ५.
अनेक-शत-साहस्र^१— -स्रः अप ५२,
१६, ५.
अनेक-शब्द^१— -ब्दम् या ४, १.
अनेकशब्द-त्व— -त्वम् पावा १,
२, ६४; मीस् १, ३, २६.
अनेक-शस्त्र (ः) वृदे १, ७१; ऋप्रा
११, २१.
अनेका(क-अ)क्षर^१— -रेण शौच ४,
१५.
अनेकाक्षर-णि(<नि)घन^१—
-नानि लाश्रौ १०, १, १५.
अनेकाक्षरा(र-अ)न्त्य^१— -न्त्याः
ऋप्रा ६, २६.
अनेका(क-अ)देश-निर्देश^१— -शात्
पावा १, १, ५०.

अनेका(क-अ)धिकरण-स्थ^१— -स्थम्
पावा १, २, ६४^४.
अनेका(क-आ)नन्तर्य^१— -र्ये आश्रौ
५, १५, १९.
१अनेका(क-अ)र्थ^१—>०र्था (र्थ-अ)-
भिधान^१— -ने पावा १, २, ६४.
अनेकार्था (र्थ-आ)श्रय^१— -यः
पावा १, २, ६४.
अनेकार्थाश्रय-त्व— -त्वात्
पावा ८, १, ४.
२अनेका(क-अ)र्थ^१— -र्थम् वृदे २,
१०८; —र्थाः अप ४८, ११६;
—र्थानि या ४, १.
अनेकार्थ-त्व— -त्वात् पावा २, २,
२९.
अनेका(क-अ)र्थक^१— -काः वृदे २,
९१.
अनेकी ✓भू > अनेकी-भवत्—
-वताम् ऋप्रा ३, २४.
अनेकीय— पा ४, २, ९०.
अन्-एकविंश^१— -शः निस् १०, ६ :
२३.
अन्-एकशेष^१— -वः पावा १, २, ६४;
६८.
अन्-एकशेष-भाव^१— -वस्य पावा
१, ४, १०८; —वात् पावा १, ४,
१०८^२.
अनेकशेषभावा(व-अ)र्थ— -र्थम् पावा
१, ४, १०८.
अन्-एकाकिन्^१— -की वाधूश्रौ ३, ९;
७.
अन्-एकान्त^१— -न्तः पावा १, १, ६९;

—न्ते पावा १, ३, ९.
अनेकान्त-त्व— -त्वात् पावा १, १,
२०; ३, १, ९४; ६, १, ७;
१८२.
अन्-एजत्^१— -जत् गुञ ४, १२३;
—जन् जैश्रौ १७ : २३^१.
अन्-एत^१— -ते पा ६, २, ३.
अन्-नेद्य^१— -०द्य आश्रौ ७, १२, २०;
—द्यः अप ४८, ६२; निघ ३, ८.
अन्-एनस्^१— -नसम् आश्रौ २, ७,
११; सु ११, ४; —नसि गौध
२१, १८; —नाः आपध १, १९,
१५; वौध १, १०, ३०; हिध १,
५, ११७^१.
अन्-नेमन्^१— -मा निघ ३, ८^१.
अन्-एव— -वा अत्र १६, ७^१.
अन्-एवं-चिद्^१— -वित् वाधूश्रौ ४,
१०८ : २८; —विदः ऋअ १,
१, १.
अन्-एप(क>)का^१— पा ७, ३, ४७.
अन्-एहस्^१— पाउ ४, २२४; —हः
आश्रौ ३, ८, १^१; —हसः शाश्रौ
१, ६, २; आपश्रौ २४, १२, ६;
—हम् आश्रौ ३, ८, १; ४, ३,
२; वौश्रौ ६, १६ : १०; २७, ६ :
१४; हिश्रौ १०, २, ६; आगृ २,
६, ८; वौगृ ४, ४, १०; —हा
पा ७, १, ९४; —हाः^१ पावा ३,
२, ८४.
अन्-ऐड^१— -डानि वौश्रौ १८, ४८ :
१५.
अन्-ऐड(क>)की^१— -कीः काश्रौ ५,

a) कस. उप. द्वस. । b) विप. । बस. । c) सपा. °वासु <> °वेषु इति पाभे. d) षस. । e) कस. ।
f) विप. । वम. पूप. कस. । g) कस. पूप. बस. । h) विप. । बस. पूप. कस. । i) विप. । बस. उप.
द्वस. । j) विप. । उस. पूप. कस. । k) तस. । l) तस. उप. षस. । m) वैप १, परि. च द्र. । n) तस.
उप. बस. । o) तस. उप. = रङ्गवाचिन् । p) अक्षं ना० इति पाठः ? यनि. शोधः q) तस. उप. ✓नी + मनिन्
प्र. (तु. दे.) । r) वैप १, २२६ e द्र. । s) तस. उप. <एतद्— । t) अनङ्कभावः उर्सं. (पा ७, १, ९४) इति
भाष्यकृदाभिसंधिः (तु. नागेशः) ।

३,७; भाश्रौ ८, ६, ७^{१०}; -कीभिः
 आपश्रौ ८, ६, ११; भाश्रौ ८, ६,
 ६^{१०}; वैश्रौ ८, ११ : १; हिश्रौ
 ५, २, ३९.
 अन्-ऐन्द्र^b -न्द्राणाम् मीसू ३, २, २७.
 अन्-ऐन्द्राग्न^b -ग्नान् बौश्रौ १६,
 ११ : ४.
 अनैपुण- , अनैपुण्य- अनिपुण- द्र.
 अनैमित्तिक^b -कम् कौसू ६७, २.
 अनैश्चारिक^c -कान् आपश्र १,
 २२, १; हिश्र १, ६, १.
 अनैश्वर्य- अनीश्वर- द्र.
 अनैष्टययन-विद्^b -वित् बौश्रौ
 १७, ४५ : ४^{२d}.
 अन्-ओंकार^e -रम् ऋप्रा १०, ३.
 अन्-ओंकृत^e -तम् कौशि ७१.
 ? अनोदान^f भाश्रौ ८, ३, १४.
 अन्-ओप्य^g आश्रौ ७, १२, ३.
 अन्-ओपधिक^h -कम् वाश्रौ १, ६,
 ७, ३५.
 अन्-ओष्ठ^e -ष्ठम् अप ७२, ६, ४.
 अन्-ओष्ठ्य^b -ष्ठ्ये ऋप्रा २, ३१.
 अन्-औⁱ -नावः पा ६, १, २१३.
 अन्-औत्तराधर्य^j -र्थे पा ३, ३, ४२.
 अन्-औपवसथ्य^k -थ्ये निस् १,
 ११ : २.
 अन्-औरस^b -सेषु शंघ ३६८; विध
 २२, ४३.
 अन्-कार-

अन्कारा(र-आ)दि^e -दि तैप्रा १,
 ५३.
 अन्कारा(र-अ)न्त^e -न्तस्य पावा
 ६, १, १३.
 ✓अन्त् पाधा. भ्या. पर. वन्धने ।
 अन्त,न्ता^l-पाउ ३, ८६; पावा ५, ४,
 ४४; पाग १, ४, ५७; ४, ३, ५४;
 -न्तः आश्रौ १०, ९, ३^{१m};
 वाश्रौ ३, ४, ४, १^{१m}; द्राश्रौ
 १५, ३, ४^{१m}; लाश्रौ ९, १०,
 १४^{१m}; वैश्र १, ७ : ६^{१m}; या ४,
 २५; पा ६, १, १५९; २००;
 २२०; २, ५१; ९२; १४३; ८,
 ४, २०; पावा १, २, ३७^३; ३, १,
 ३; ६, १, १६१^२; १६२; २, १०६;
 -न्तम् आश्रौ; कौसू ८०, २६^०;
 -न्तया अप्राय ४, १; -न्तयोः
 बौश्रौ; -न्तस्य निस् ६, ४ : ५;
 -^१न्ताः वैश्र; -न्तात् शाश्रौ;
^१माश्रौ १, ४, १, १५; ७, ४, ४२;
 ५१^१; पावा ६, ३, १०; -न्तान्
 काश्रौ; आपश्रौ ८, ८, २१^{१p}; जैश्र
 १, २० : १४^{१q}; -न्ताय वाधूश्रौ;
 -न्ते आश्रौ; -न्तेन आपश्रौ;
 -न्तेषु शाश्रौ; -न्तौ आपश्रौ;
 आपश्रु १, ७^{२r}.
 अन्त-कर- पा ३, २, २१.
 अन्त-करण^e -णम् या १, १३.
 अन्त-काल- -ले वृदे २, ५४.

°अन्त-काल-कपाल-भगाल-
 शराव^l -वेषु पा ६, २, २९.
 अन्त-ग^m - पा ३, २, ४८; -गम्
 बौश्रौ २४, १३ : ६; भाशि ७१;
 -गाः बौश्रौ २, ३ : ३.
 अन्त-गत- -तम् शौच ४, ११२.
 अन्तगता(त-आ)द्य- -द्योः
 ऋप्रा ११, ४४.
 अन्त-ग्रहण- -णम् पावा ५, २, ४६;
 ८, २, ७; ४, २०; -णान् पावा ८,
 १, १७; -णे पावा ३, १, ३२.
 °अन्त-ग्रहण- -णे पावा ४, २,
 १४१.
 अन्त-चर^m -रम् निस् ६, ७ : ३३.
 अन्त-च्छन्दस्^v -न्दसि निस् ७, ९;
 १४; -न्दसी निस् ७, ३ : ३७.
 अन्त-जन^w - (> आन्तजनायन-
 पा.) पाग ४, १, ९९.
 अन्त-तन्त्रतर- -रम् निस् ५, ८ : ७.
 अन्त-तम- -मः निस् ६, १ : १६.
 अन्त-तसः(ः)आश्रौ ८, ६, १४; शाश्रौ.
 °अन्त-त्व- -त्वात् पावा १, १,
 २०; ७, २, १४.
 अन्त-दर्श(न>)ना^e -ना निस् ८,
 ११ : १९.
 °अन्त-निमित्त-त्व- -त्वात्
 पावा ३, २, १२४.
 अन्त-निर्वच(न>)ना^e -नाः निस्
 ४, ९ : १९.

a) अने^o इति पाठः? यनि. शोधः (तु. सपा. माश्र २, ५, २, १५) । b) विप. । तस. । c) विप. (आध्यात्मिक-योग-) । तस. उप. <निश्चार- =चञ्चलता- । d) नैष्ठयन- =होम-विशेष- (तु. RIV.) । e) विप. । बस. । f) पाठः? अनवानम् (क्वि.) इति शोधः (तु. आपश्रौ ८, ३, ९ वैश्रौ ८, ७ : ६) । g) तस. उप. < आ ✓वप् । h) विप. । बस. । अनौⁱ इति पाठः? यनि. शोधः । i) तस. । j) तस. उप. < उत्तरा (र-अ)धर- [द्रस.] । k) विप. । तस. उप. < उपवसथ- (तु. लाश्रौ २, ५, २८) । l) नाप. (साम-विशेष- [निस्.]) । वैप १, परि. च द्र. । m) पाभे. वैप १ परि. ऋ १, १६४, ३५ टि. द्र. । n) उक्तवन्तः इति पाठः? यनि. शोधः (तु. सस्थ. उक्तवा) । o) =अन्तर । p) पाभे. वैप २, ३खं. अन्तान् तैप्रा १, ५, ५, २ टि. द्र. । q) °न्ताम् इति पाठः? यनि. शोधः । r) सकृत् अन्तरा इति पाठः? यनि. शोधः । s) सस. । t) द्रस. । th) विप. । उस. । v) कस. पू. =छन्दो-विशेष- । w) व्यप. (ऋषि-विशेष-) । व्यु. ? ।

अन्त-पद-त्व- -त्वात् पावा २,
४,८१.

अन्त-परिक्रमिन्^a- -मिणः वौश्रौ
२५, ६ : १६; -मिणौ वौश्रौ
२५, ६ : १३.

अन्त-पर्ययिन्^b- -यिणः निस् १०,
२ : ३१.

अन्तपर्ययि-त्व- -त्वात् निस् १०,
२ : ३१.

अन्त-प्रकृतिस्वर-त्व- -त्वे
पावा ६, २, २९.

अन्त-प्रवाद^b- -द्वैः आपथौ १८,
२२, ११; हिश्रौ १३, ७, ३.

अन्त-प्लुत^b- -तेन वैताश्रौ १९, १०.
अन्त-भाज^a- -भाक् ऋप्रा ११, २५.

अन्त-मात्र-प्रसङ्ग^c- -ङ्गः पावा
२, १, २.

अन्त-राजित-दीप्ता (म-अ) मि-
काञ्चना(न-अ)मल—संनिभ^d-
-भैः अप ६५, १, १०.

अन्त-लक्षण^b- -णानि निस् ४, ५ :
१९; ५, ८ : ९; ८, ४ : १७;
-णैः निस् ८, ९ : ३१.

अन्त-लघूपध- -धस्य पा ७,
३, ८६.

अन्त-लोप^e- -पः या २, १; ऋप्रा
४, ८३; पावा ५, २, ६.

अन्त-वचन^f- -नम् पावा १, ४, १४;
-ने काश्रौ १, ३, २६; ७, ५, २१.

अन्त-वचन- -नम् पावा ४, ३,
२४.

अन्त-वत् पावा १, १, २१.

अन्त-वत्- -वत् अप्रा ३, २, ३३;
-वन्तः कप्र २, ४, १२; -वन्तम्

आपध २, २४, १४; हिध २, ५,
१७८.

अन्तवत्-त्व- -त्वात् पावा १,
२, ४५; ६, १, १०६; -त्वे पावा
६, १, ८४.

अन्त-विकार- -रात् तैप्रा १५, ५.

अन्त-विध, घा^b- -घः निस् ५, ८ :
८; ७, ४ : ४४; -घाभिः निस् ९,
४ : १४.

अन्त-वृद्धि^c- -द्धौ विध ६, ७.

अन्त-व्यापत्ति^c- -त्तिः या २, १.

अन्त-श्रित^e- -ताः वौश्रौ २३, ७ : ६.

अन्त-संस्था^f- -स्था^g वैताश्रौ २४,
९-१०.

अन्त-समाधि^h- -धये निस् ७, २ : १२
अन्त-समास-वचन- -नात्
पावा ४, १, ४८.

अन्त-सामन्^h- -म निस् ७, ९ :
१४; ८, ९ : ३५.

अन्तसामा(म-अ)न्त^e- -न्तः
निस् ९, २ : ३१; -न्तम् निस् ९,
३ : ७.

अन्त-स्थⁱ- (>अन्तस्थीय- पा.)
पाग ४, २, १३८.

अन्तस्था(स्थ-अ)न्तरो(र-उ)प-
लिङ्गिन्^j- -ङ्गी या १०, १७.

अन्त-स्थान^b- -नः निस् ३, ४ : २०.

अन्त-स्थित^k- -तेन जैश्रौका ८०.

अन्त-स्वर^b- -रम् ऋत् २, २, १०.

अन्त-होम^l- -मः वैगृ २, ८ : ६;

५, १५ : १५; -मम् वैगृ ३,
१७ : १६; ६, २ : ४; वैध ३,
१०, ७; -मे वैगृ ६, १ : २३.

अन्तहोमा(म-अ)न्त^e- -न्ते वैगृ
४, ४ : २५.

अन्ता(न्त-अ)क्षर^m- -रात् ऋत् ५,
७, ३.

अन्ता(न्त-आ)ख्याⁿ- -ख्यानि निस्
२, ८ : २४; ६, १३ : १९.

अन्ता(न्त-आ)ख्या^o- -ख्या मीस्
५, ३, ८.

अन्ता(न्त-अ)त्यन्ता(न्त-अ)ध्व-दूर-
पार-सर्वा(र्व-अ)नन्त- -न्तेषु पा
३, २, ४८.

अन्ता(न्त-आ)दिⁿ- -दी पाग २,
२, ३१.

अन्तादि-वत् पा

(>अन्तादिवद्-वचन-
-नम् पावा) ६, १, ८४.

अन्ता(न्त-आ)दि-शब्द-स्वरा (र-अ)
र्थ-ज्ञाना(न^o-अ) र्थ- -र्थम्
शौच ४, १०७.

अन्ता(न्त-अ)धिकार- -रे पावा
६, ३, ८.

अन्ता(न्त-अ)न्वित, ता^p- -तम् निस्
९, ११ : २२; -ताः निस् ७,
३ : ३८; -तौ निस् १०, २ : ३५.

अन्ता(न्त-आ)पत्ति- -त्तिः आश्रौ
१, २, १५.

अन्ता(न्त-अ)वमायिन्^q- -यिनम्
भाश्रौ ११, २१, २०; २२, १२;
भागृ ३, ६ : २५, ७ : ८; -यिभिः

a) विप.। उस.। b) विप.। बस.। c) षस.। d) विप.। (मध्यैराजमान-दीप्तामिना निर्मलकाञ्चनेन तुल्य-] अत्र-। e) विप.। [(पार्श्व- [समीपदेश-] श्रित-) मेघ-]। द्वितीयासमासः। f) नाप.। (उदयनीयेष्टि-)। उस.। g) अन्तः। [९म सूत्रम्], संस्थानूषन्ध्यायाम् इति पाठः? यनि. च अन्तूषन्ध्यायाम् इति च द्वि-पदः शोधः। (तु. C. [ZDMG ५८, ५०६])। h) कस.। i) तु. पागम.; वैतु. पाका. अन्तःस्थ-?। j) विप.। उस. पूष. षस.। k) विप.। (प्रस्तोत्-। सस.। l) नाप.। (होम-विशेष)। सस.। m) सस.। n) द्वस.। o) द्वस. > षस.। p) विप.। तृस.। q) नाप.। (चारुडाल-जाति-)। उस.।

गौध २०, १.
 अन्तावसायिनी- न्याम् गौध
 २०, १.
 अन्तावसायिनी-गमन- ने
 गौध २३, ३३.
 अन्ता(न्त-अ)हन्^h- -हानि निसू ८,
 ७ : ३.
 अन्ता(न्त-अ)हर्^h- -हः निसू ९,
 ११ : ९.
 √अन्ति > †१अन्त-क^b- -कः
 कौसु १३५, ९; बौध २, ७, ९; अअ
 ८, १० (४) : १६, ५; -काय
 आपर्भ २, २०; आम्रिगृ १, १, ३;
 ४२; २, ६, ७; ३३; हिगृ १, ६, ५;
 हिपि १७ : २; २१; कौसु ५५,
 १७ : ५८, ३; ११; अप ३२,
 १, ९; १८ : ३७, २, १; ४३,
 ५, ४४; अरां २२, ३; अअ
 ८, १.
 अन्तक-पुत्रक^c- -काः अप
 ५२, ६, २.
 अन्तक-प्रभृति- -तिभिः
 द्रागृ २, ४, १६.
 अन्तको(क-उ)पम^d- -माः
 अप ६८, १, २४.
 अन्तक्या^e- -क्या अप्रा ३,
 ४, १.
 अन्तिम, मा- पावा ४, ३, २३;
 -मम्, -माम् हिथ्रौ ११, १, ९;
 -मे भाथ्रौ ७, १५, ४; हिथ्रौ ४,
 ४, २७; -मेन हिथ्रौ ५, ५, १२;
 -मौ भाशि २, ३.
 अन्ते-गुरु- पावा ६, ३, १०.
 अन्ते-वासि^f- पाग ५, ४, १२८.

अन्ते-वासिन्^h- -सिनः वाधुश्रौ ३,
 ७० : ३; हिगृ १, १४, ४; आपध
 २, १७, ६; हिध २, ५, ३५; चाअ
 ३८ : १; -सिनम् बौपि ३, १,
 ५; हिगृ १, १४, २; -सिनाम्
 वागृ ८, ४; कागृ ९, ३; मागृ १,
 ४, ३; चाअ ४२ : १५; -सिनि
 पा ६, २, १०४; -सिने बौथ्रौ
 २०, २१ : २८; २१, २५ : २,
 पागृ १, ३, २२; -सिभिः बौगृ
 ३, ९, ३; भागृ ३, ८ : १२;
 -सिभ्यः पागृ ३, ३, १२; वाध
 १२, २; -सिपु बौथ्रौ १७, २७ :
 ८; ९; बौगृ ३, १, ३; -सी आथ्रौ
 २, ४, ४; काथ्रौ १४, ३, १९; बौथ्रौ
 १६, २७ : २३; १७, ४० : १८;
 २०, २ : ९; २० : १३; आगृ १,
 ९, १; ४, २, १८; आम्रिगृ १, ४,
 १ : १३; ३, ५, १ : १२; २ : ९;
 ९, १ : २; २ : २; ३ : १९; बौपि
 १, १ : १०; २ : १३; २, ५, १;
 ५; ७, १६; आपध १, ८, २६; २,
 १४, ३; बौध १, ५, ९९; हिध १,
 २, ११४; २, ३, १४; ऋअ २, १,
 १७९; पा ६, २, ३६.
 अन्तेवासि-ब्राह्मण^h- -णेभ्यः
 पावा ४, २, १०४.
 अन्तेवासि-वित्रि^c- -त्रिना गौध
 २८, ४०.
 अन्ते-स्वाहाका (र>) रा^d-
 -राभिः कौगृ १, १२, ८; शांगृ १,
 २०, ५; -राभ्याम् कौगृ १, १२,
 १; शांगृ १, १९, १.
 °अन्तै(त-ए)कान्त-स्व- स्वात्

पावा २, १, २.
 अन्तो(न्त-उ)च्च¹- -च्चः भाशि ३४;
 -च्च भाशि ४.
 अन्तो(न्त-उ)च्चक^d- -कौ भाशि ५५.
 अन्तो(न्त-उ)दात्त^d- -त्तः ऋप्रा
 १२, २४; भाशि ८६; दंवि १, ५;
 पावा ३, १, १३२; -त्तम् ऋप्रा
 १, ७८; शुप्रा २, ५४; अप्रा १,
 २, ५; २, २, ११; ३, ४, १; कौशि
 ३४; -त्तात् पा ४, १, ५२; २,
 १०९; ६, १, १६९; पावा ४, १,
 ५२; ६, २, १०६; -त्तानि
 अप्रा १, २, १०; २, ४, ३; ४;
 -त्ते शुप्रा १, १४९; शौच
 ४, २६; पावा ४, १, ५२; २,
 १०४.
 अन्तोदात्त-स्व- स्वम् अप्रा १,
 २, १६; पावा २, १, १; ३, १,
 १०३; ११४; २, ५९; ६, १,
 १६२; २, १४३; -स्वात् पावा
 ६, २, १७७.
 अन्तोदात्त-निपातन^e- -नम्
 पावा ६, ३, ५२.
 अन्तोदात्त-प्रकरण^e- -णे पावा
 ६, २, १०६; १९९.
 अन्तोदात्त-प्रसङ्ग^e- -ङ्गात् पावा
 ६, २, ४९.
 अन्तोदात्त-वचन- -नम् पावा
 २, २, ३६; ६, २, ३३; ३, ९५;
 -नात् पावा ६, १, १६२.
 अन्तोदात्ता(त्-आ)दि^d- -दीनि
 अप्रा १, ३, १४.
 अन्तोदात्ता(त्-अ)प्रसङ्ग^e-
 -ङ्गात् पावा ६, २, ४९.

a) कस. । b) वैप १, परि. च द्र. । c) षस. । d) विप. । बस. । e) नाप. (अन्तकशब्द-
 वती-] ऋच्-). मत्वर्थीयः यत् प्र. उसं. (पा ४, ४, १२८) । f) सपा. आपथ्रौ ७, १९, ८ अन्तमे इति पाभे. ।
 g) वा. किवि. (तु. पागम.; वैतु. MW. प्रथ. <वासिन्-) । पासि. अन्तवा इति । h) नाप. (शिष्य-). उस.
 उप. <√वस् [निवासे] । i) = अन्तोदात्त- । विप. । बस. ।

अन्तो(न्त-उ)पहित^a- -तात्
ऋप्रा २, ३६.

अन्त्य,न्त्या^b- पा ४, ३, ५४; -न्त्यः
आश्रौ; पावा १, ४, ११०;
-न्त्यम् आश्रौ; पा १, ३, ३;
-न्त्यया ऋअ; अत्र ५, २४^c;
२६^d; -न्त्ययोः आपशु;
अत्र २०, ९; १०४; ११८; मीस्
१, २, १८; -न्त्यस्य शाश्रौ; पा
१, १, ५२; ६, १, ९९; पावा १,
१, ३; ११; २१; ५२; ५४; ६३; २,
२८; २, ४, ३२; ३, २, ४९; ६, ४,
१५४; ७, २, ३; ८, २, ८६; -न्त्या
ऋअ; अत्र ३, २६^e; -न्त्याः
आश्रौ; -न्त्यात् आश्रौ; पा १,
१, ४७; ६५; ६, २, ८३; १७४;
पावा १, १, २१; ४७^f; ६५; ७, १,
७२; -न्त्यान् शाश्रौ १२, २, ३^g;
निस् ८, ९; २६; -न्त्यानाम्,
-न्त्यानि आश्रौ; -न्त्याभ्याम्
ऋअ; -न्त्याम् काश्रौ; -न्त्यायाम्
माश्रौ ६, २, ४, ३; -न्त्ये आश्रौ;
-न्त्येन आश्रौ; पा, पावा १, १,
७१; -न्त्येषु आश्रौ ५, १२,
१२; ६, ११, १०; -न्त्यौ ऋअ
१, ८, ७; शुअ ५, ५७; ऋप्रा १६,
४१.
अन्त्य-कर्मन्^h- -र्म विध ५४,
२५; -र्मणि वृदे ७, १५.
अन्त्य-च्छिद्रⁱ- -द्रम् हिशु ३,
२१.
अन्त्य-ज,जा^j- -जम् वौश्रौ २४,
१३; ७; -जाः वौश्रौ २, ३;

३; -जायाः विध ३६, ७.
अन्त्य-जात^k- > ^lत-गो-ब्राह्मण-
गुर्व(रु-अ)र्थ-हृत^m- -तानाम्
सुध १७.
अन्त्य-जातिⁿ- -तौ वैगृ ६, ७;
१३.
अन्त्यजात्य(ति-अ)नुपहत^o-
-तम् वैश्रौ १, १; १०.
अन्त्यजात्य(ति-अ)मेध्य-
वायसा(स-आ)दि-स्पर्शन^p-
-ने वैश्रौ २०, ३२; ३.
अन्त्य-देवता^q- -ता काश्रौ २२,
८, ३.
अन्त्य-नियम- -मे पावा ८, २,
८२.
अन्त्य-निर्देश^r- -शाः पावा १,
१, ६५.
अन्त्य-निवृत्त्य(ति-अ)र्थ- -र्थम्
पावा ७, ४, ८३; ८, १, १.
अन्त्य-प्रतिषेधा(ध-अ)र्थ- -र्थम्
पावा ६, १, १६७; ७, ४, १; ८,
२, ८०.
अन्त्य-योनि^s- -नयः वाध १६,
३०.
अन्त्य-लोप^t- -पः मीस् १०,
५, १.
अन्त्य-वर्जम् काश्रौ १२, ३, २३.
अन्त्य-विकार^u- -रात् पावा २,
४, ८५; -रे ऋत ४, ५, १.
अन्त्यविकारा(र-अ)भाव-
-वः पावा ६, १, २.
अन्त्य-विज्ञान^v- -नात् पावा १,
१, ६५.

अन्त्य-विधि^w- -धिः पावा १,
१, ६५; मीस् १०, ५, ६.
अन्त्यविधि-प्रसङ्ग- -ङ्गः पावा
८, १, १८.
अन्त्य-श्च-वायस^x- -सैः विध
२३, ४१.
अन्त्य-स-देश^y- -शस्य पावा
६, १, १३.
अन्त्य-स्थान^z- -ने शैशि २८१.
अन्त्य-स्वरित^{aa}- > ^{ab}त-संज्ञा^c-
> ^dसंज्ञित^e- -तः अप ३४,
१, २.
अन्त्य-स्वार^f- -रः भाशि २३,
अन्त्यां(न्त्य-अं)श^g- -शः कौशि
७८.
अन्त्या(न्त्य-अ)क्षर^h- -रम् निस्
३, १२; ३२.
अन्त्या(न्त्य-आ)ख्यⁱ- -ख्यानि
निस् ४, १; १३.
अन्त्या-गमन^j- -ने विध ५,
४३.
अन्त्या-चतुर्थी^k- -थ्यौ ऋअ २,
५, १०^l।
अन्त्या(न्त्य-आ)दि^m- -दि पावा
१, १, २१; ६४.
अन्त्या-नवमीⁿ- -स्यौ ऋअ २,
८, ९८.
अन्त्या(न्त्य-अ)नुवाक^o- -के शुअ
२, २५३.
अन्त्या(न्त्य-अ)न्वि(त >)ता^p-
-ता निस् ६, २; १४.
अन्त्या-पञ्चमी^q- -स्यौ ऋअ २,
५, ९.

a) तुस. । b) वैप १, परि. च द्र. । c) अन्त्यवयः इति पाठः ? यनि. शोधः । d) आन्त्या इति
पाठः ? यनि. शोधः । e) कस. । f) नाप. । उस. । g) सस. । h) विप. । द्वस. > षस. > सस. ।
i) षस. पूष. द्वस. गर्भितः बस. । j) षस. । k) नाप. (अन्त्यज-) । बस. । l) द्वस. । m) षस.
उप. समानस्य स-भावः । n) विप. । तदस्यसंजातीयः इतच् प्र. । o) विप. । बस. । p) ^qथ्यौ इति पाठः ?
प्रकरणतः यनि. शोधः । q) विप. (सूर्यवती-) । तुस. ।

अन्त्या(न्त्य-अ)र्थ- -र्थम् पावा
८, २, ८५.
अन्त्या(न्त्य-अ)वसायिन्^a- -यो
वाध १८, ३.
अन्त्या(न्त्य-अ)हन्^b- -हानि
निस् ८, ३ : २८.
अन्त्ये(न्त्य-इ)डा^b- -डा निस्
४, १ : १५; -डाम् निम् ४, १ :
१३; -डायाः निम् ४, १ : १५.
अन्त्ये(न्त्य-इ)एक^b- -के वौश्रौ
१९, १० : ५७.
अन्त्यै(न्त्या-ए)कर्विशी^c- -इयौ
ऋअ २, ८, २६.
अन्त्यो(न्त्य-उ)पधा-लक्षण—
प्रतिषेध^d- -धः पावा ७, २,
११७.
अन्त्यो(न्त्य-उ)पा(घ>)घा^e-
-घे ऋअ २, १०, ४९.
१अन्तक- अन्त->√अन्ति द्र.
२अन्तक- -काः^f वौश्रौप्र ३१ : २.
अन्त-कर- प्रमृ. अन्त-द्र.
१अन्तम,मा^g- -मः आपश्रौ ८, २, ३;
आपश्रौ ६, १७, ७; १२, १८,
८; वौश्रौ ३, ८ : २९; ७, १ :
१२; ८ : १८; ८, १४ : ८; १४,
५ : ४८; ९ : १५; १९; १६,
६ : १३; २९, १ : ७; ४ : २४;
माश्रौ २, ३, ६, १५; ६, २,
२, २१; वैश्रौ १५, २१ : ७;
१६, ३ : ८; १३ : ३; १६ :

१०; १९, ५ : १०; २१, १२ :
२; हिश्रौ ८, ५, २; १४, ४, ५७;
आमिगृ २, ३, ५ : २६; ७, ८ :
१७; जैगृ १, १३ : ६; कौस्
६८, ३१; चाअ ७ : २; तैप्रा
११, १३; -मम् वौश्रौ ५, १६ :
४; १६; -मस्य हिश्रौ १६, ८, १९;
-माः आपश्रौ ११, २०, ६^h; वौश्रौ
६, ३२ : ५; वैश्रौ १४, १८ : ३;
हिश्रौ ७, ८, ४९; -मानाम् अप
४८, ७३; निघ २, १६; -मायाम्
वौश्रौ ६, ५ : १९; ८, ५ : २;
११, ६ : ११; १२, ७ : २६;
१९, ३ : १; ९ : २; -मे आपश्रौ
७, १९, ८ⁱ; वौश्रौ ५, १६ :
१०; भाश्रौ ८, २१, ७; ९, ३,
१२; वैश्रौ १०, १५ : १३^j; १४;
-मेत आपश्रौ ८, १७, १२; ९, २,
५; वौश्रौ २४, ८ : १३; हिश्रौ
१५, १, ४२; आपगृ १३, १६;
२२, ४; -मेषु वौश्रौ ४, ७ : २;
१०, १३ : ९; वैश्रौ १८, ७ : ३.
अन्तमा(म-अ)गार^b- -रात् वौश्रौ
५, १६ : ४; १२, १ : १२; ४ :
११; १४, १३ : २७.
अन्तमात्रप्रसङ्ग- प्रमृ. अन्त-द्र.
अन्तर्रः(>)^j आपश्रौ १, १३, १; २, १६,
३^k; आपश्रौ ४, ५, ३^l; २, ४, ४^m;
लाश्रौ ३, ९, २०^m; आपमं १,
१२, ८ⁿ; २, २०, ३०ⁿ; आगृ १,

१३, ७; कौगृ ३, १५, २^o;
शांगृ १, १९, ६^o; ३, १२, ३^o;
आमिगृ १, ५, ५ : १५ⁿ; ३, २,
२ : २^o; या २, ३; ८; १०; ४,
२१; ८, २^o; ११०, १९^o; १४,
३^o; पाउ ५, ६०; पा १, ४, ६५;
६, २, १७९; १८०; ८, ४, २४;
पाग १, १, ३७; अन्तःअन्तः
माश्रौ ५, २, ९, ५; १२, ३१^o.
अन्तःकरण^p- -गम् आशि ८, २५.
अन्तःकरण-दोष^q- -षात् अप
७०, १०, ४.
अन्तःकोश^r- -शम् अप्रा ३, ३, ५^o.
अन्तःऋतु-प्रयुक्त^r- -क्तानि मीस्
६, २, ३१.
अन्तःपक्षस^r- -सम् वौश्रौ ११,
७ : ३९.
अन्तःपद^r- -दम् ऋप्रा २, १३; ४,
४१; ५, २०; १०, ७; -दे शुप्रा
४, २; ८; ११९; १६३; शौच
१, ८३; २, ३३; ३, ५९.
अन्तःपद-दीर्घा-भाव- -वे
शुप्रा ४, १९२.
अन्तःपद-स्थ- -स्थः ऋप्रा ५,
११; -स्थम् ऋप्रा ५, ४०; -स्थैः
ऋप्रा ५, २०.
अन्तःपरिधि^r- -धि शांश्रौ १३,
१२, ७; काश्रौ २५, १२, १;
आपश्रौ २, २१, ७; ९, २, ५;
१२, २४, ५; १४, ३०, २; वौश्रौ

a) नाप. । उस. । b) कस. । c) द्रस. । d) षस. पूष. कर. > बस. । e) व्यप. (ऋषि-
विशेष-) । व्यु. ? । f) बहु. < आन्तकि- । g) १अन्तम-, २अन्तम- [तु. वैप१] इत्येतयोरिह एकत्र
सन्निवेशः । h) वैतु. C. क्रिवि. इति । i) पाभे. पृ २१३ f द्र. । j) सप्तम्यर्थोपबृंहणः कप्र. (तु. वैप १,
परि. च) । k) अन्ते इति कालि. । l) सपा. अप्राय ३, १० अन्तरा इति पाभे. । m) अन्तः, वेदेः इति
स्थाने सपा. द्राश्रौ १०, १, १८ अन्तर्वेदि इति पाभे. । n) सपा. कौगृ १, १२, ६ अस्मिन् इति पाभे. । o) पाभे.
वैप १, ७५८ C द्र. । p) नाप. (आभ्यन्तर-प्रयत्न-) । मलो. कस. । q) षस. पूष. =मनस- ।
r) वैप १ द्र. । s) ऋ-युक्त- इति कासं. । t) अस. समासान्तष् टच् प्र. उत्सं. (पा ५, ४, १०७) ।
वा. क्रिवि. । u) अस. ।

१, १७ : १९; ७, ४ : २२; ९,
१० : २५; २३, १२ : ६; २४,
२८ : १०; २६, ८ : १४; भाथ्रौ
९, ३, ५; माथ्रौ ३, २, ७^२; ६,
१३; वैथ्रौ ६, १० : ९; १५,
८ : १५; ३१ : ५; २०, ५ : ५;
२१, १६ : ४; हिथ्रौ ८, ७, ४३;
१५, १, ४३; ७, १८; २४, ४, १०;
द्राथ्रौ ६, ३, १८; लाथ्रौ २, ११,
१२^३; वृदे ७, ९८.

अन्तः-पशु^१—>अन्तःपशव्य-
-व्येन शुप्रा ३, ३८.

अन्तः-पात^२—-ताः ऋप्रा ४, १९.

अन्तः-पात्य^३—-त्यः काथ्रौ ८, ३,
७७; -त्यस्य काथ्रौ १६, ७,
३०; १७, ३, १७; -त्यात् काथ्रौ
८, ५, २६; -त्ये काथ्रौ १९, २,
२८; २६, ७, २.

अन्तःपात्य-गार्हपत्य^४—-त्ययोः
काथ्रौ १६, ८, २२; काशु ६, ६.

अन्तःपात्य-देश^५—-शे काथ्रौ ८,
६, ३२; १५, ६, २२; २६, १, २.

अन्तःपात्य-लहित^६—-तम् काथ्रौ
८, ६, २४.

अन्तःपात्य-स्थान^७—-ने काथ्रौ
१९, १, १८.

अन्तः-पात्र^८—-त्रे अप्रा ३, ३, ५.

अन्तः-पाद^९—-दम् ऋप्रा २, ३, ५;
५०; ४, ४२; ५, १; ८, १; पा
६, १, ११५; ८, ३, १०३.

अन्तःपाद-विकृत^१—-तम् उम्
४, ६.

१अन्तः-पार्श्व^२—-श्वेन तैप्रा ८, ३२.

२अन्तः-पार्श्व^३—>०इर्थ्यं—इर्थ्यम्
शुप्रा ३, ३८.

अन्तः-पुंवद्-रूप—युत^४—-तम् वैगृ
६, ३ : ७.

अन्तः-पुर—-रम् अप्र २४, १, ९.

अन्तःपुरा(र-आ)धिपत्य—-त्यम्
वाध २९, १२.

अन्तः-पूर्व-पद^५—-दात् पा ४, ३,
६०.

अन्तः-प्रतिहार^६—-रम् लाथ्रौ ६,
१०, २५.

अन्तः-प्रयत्न^७—-लः आशि ३, १२;
८, ६.

अन्तर्-अङ्ग^८—-जः पावा ८, २, ६;
-ङ्गम् पावा १, ४, २; ६, १, १०६.

अन्तरङ्ग-वलीयस्व^९—-स्त्वस्य
पावा ६, १, १०६; -स्वात् पावा
६, १, ८४.

अन्तरङ्ग-लक्षण—-त्य—-त्वात् पावा
१, १, ५; ६, ४, ९३; ७, १, ६.

अन्तर्-अन्त-स्थ^{१०}—-स्थम् आगृ
१, १५, ४; कौगृ १, १६, ९; शांगृ
१, २४, ४; पागृ १, १७, २; वैगृ
६४ : ५; आगृगृ २, १, ५, २९;

आपगृ १५, ९; कागृ ३४, २; वौगृ
२, १, २६; भागृ १, २६ : ७; मागृ
१, १८, १; वागृ ३, १; वैगृ ३, १९;

५^{११}; हिगृ २, ४, १०; गोगृ २, ८,
१४; जैगृ १, ९ : ४; शंघ २१^{१२}.

अन्तर्-अवस्त्राविन्^{१३}—-विणम् वौथ्रौ
१०, ४८ : ३; १९, ४ : २५.

अन्तर्-आगम^{१४}—-मः ऋप्रा २, ३१.

अन्तर्-आगार—-रे आमृगृ २, ४,

१ : २३; भागृ १, १९; ११; २१ :

३; २२ : ४; २६ : ४; २८ : ४; २,

१ : ३; ४ : २; ३२ : ४; हिगृ

१, १५, ५; १७, ६; २७, १०.

अन्तर्-आङ्गन^{१५}—-नम् वौथ्रौ ९,

११ : ६; ८^{१६}; १०^{१७}; वैथ्रौ १३,

१३ : ९.

अन्तर्-आत्मे(म-इ)ष्टक^{१८}—-कम्

काथ्रौ १७, २, ४.

†अन्तर्-आमय^{१९}—-यः वौथ्रौ २,

५ : १; ८ : १५.

अन्तर्-आल^{२०}—-लः वैध ३, ११, २;

-लम् आपथ्रौ २२, ११, २१;

वैथ्रौ १४, ६ : २; हिथ्रौ ७, ५,

१३; १७, ५, ९३; वप्र १, १०,

११; अप ६५, २, ९; आपथु

४, ५; वौगृ ३ : ६; १६ : १४;

हिथु २, ४; -लाः वौगृ ४ :

१४; -ले वाथ्रौ १, ५, ३, १०;

वैथ्रौ २, ९ : ७; हिथ्रौ ३, ७,

११६; आमृगृ १, २, २ : १६;

हिगृ २, १९, ४; आपथ २, १, १८;

हिध २, १, १७; आपथु ४, १;

८, १२; हिथु २, १; पा २, २,

a) °धिम् इति काचित्कः पाठः?। b) वैप १, परि. च द्र.। c) नाप. (सांय-नवशेष-)। उस.।

d) नाप. (शङ्खु-विशेष-)। उस.। वैप २ °त- इति। e) द्रस.। f) पस.। g) विप.। तृप.। h) वैप १

द्र.। i) अस.। j) सस.। k) तृस. पूष. कस. > कस.। l) विप.। वस. उप. कस.। m) अस. वा.

क्रिवि.। n) मलो. कस.। o) विप.। बस.। p) विप.। बस. उप. विसर्ग-लोपः (पा ८, ३, ३६)। q) अन्तरं

द्विप्रतिष्ठितान्तस्थम् पाठः? अन्तरन्तस्थं, द्विप्रतिष्ठितम् इति शोधः (तु. सप्र. मागृ. प्रम्.)। r) अन्तस्थम्

इति पाठः? यनि. शोधः। s) विप. (अर्कपर्यास्य पुट-)। उस.। t) विप. (महावीर-)। वस. उप. भाप.।

u) तथैवाङ्ग इति पाठः? तथैवाङ्ग इति शोधः (तु. वैथ्रौ.)। v) अस. वा. क्रिवि.। उप. द्रस.। w) नाप.

(रोग-विशेष-)। मलो. कस.। x) नाप. पुं. न. (वात्य-भेद-, मध्यवर्ति-स्थान-)। व्यु. ?। वैप ३, ६२ b अपि द्र.।

२६; मीस् ५, ३, ४; -लेषु शांथौ
 १४, ६, ६; आपथौ १९, १२, २;
 ४; ६; ८; बौथौ १९, ३ : ३; ९;
 १४; २०; वाथौ ३, ४, ३, २३;
 हिथौ ७, ५, २७; ७, २१; २३,
 २, १३; १५; १७; १९; बौथु
 ९ : ९; १६ : २०; २१.
 अन्तराल-गुणा(ण-अर्थ)^a—
 स्व- त्वात् मीस् १०, ८, ६०^b.
 अन्तराल-प्रधाना(न-अ)भिधा-
 न^c— नान् पावा २, २, २७.
 अन्तराल-व्रत^d— तानि शांथौ ३,
 १३, ३०; आपथौ ८, ४, ४; २२,
 ९, ४; वाथौ १, ७, १, १; हिथौ
 ६, ८, ८.
 ?अन्तराल-व्रात्य^d— त्यात् वैध
 ३, १४, १०^e.
 अन्तरि (रू३), अन्तरेति बौथौ १४,
 ८ : ३५; १७, ४ : १४; वाधूथौ
 ४, ४९; ७; अन्तरेमि आपथौ ४,
 ९, ६; माथौ ४, १३, १३; हिथौ ६,
 ३, २; कौथु ३, २, १; अन्तरिमः
 वाधूथौ ३, ८८ : १५; अन्तरयाणि
 वाधूथौ ४, २ : १२; अन्तरियात्
 आथौ ३, १०, १०; शांथौ ६, ६,
 १९; आपथौ ९, १५, २१; बौथौ
 २९, १०; १२; माथौ ९, १८, ८;
 हिथौ १५, ४, ४१; अप्राय ४,
 २; अन्तरियुः माथौ ९, १९, ५.
 अन्तरेष्यसि वाधूथौ ४, ४९ : ४;
 अन्तरेष्यामि बौथौ १५, २७; ५;

वाधूथौ ३, ८८ : ९; वाथौ ३,
 ४, ४, ५; अन्तरेष्यत् निस् २,
 १३ : ३^f.
 अन्तर-अयण- पा ८, ४, २५.
 अन्तर-आय- -यः काठथौ
 १०९; बौथौ १८, १३ : ६; १३;
 -यस्य मीस् ४, ४, ११; -ये
 आपथौ ९, १६, १०; माथौ ९,
 १९, ७; अप्राय ४, २.
 अन्तर-इत्, ता- -तः बौथौ २४,
 ६; ११; ७ : २; निस् २, १२ : ३;
 -तम् आथौ २, ३, ७^g; काथौ
 २, ५, २२^h; आपथौ १, २५, ८^h;
 ६, ६, ८^h; काथौसं ३१; १; बौथौ
 १, १० : ७^h; ३, ५; ६^h; २४, ६;
 ५; माथौ १, २६, ४^h; ६, १०,
 ९^h; माथौ १, ६, १, २०^h; ३,
 १, ४; वाधूथौ ४, ६० : ५; वाथौ
 १, ५, २, २०^h; ३, २, ४, १०;
 वैथौ २, ३ : ३^h; ४, १० : ९^h;
 हिथौ १, ६, ४९^h; ३, ७, ३५^h;
 आमिगृ २, ७, ९; ३०; भागृ ३, १९;
 १६; वैगृ १, १२ : ७^h; १३ :
 ८^h; २०; १; -ताः आथौ २,
 ३, ७; काथौ २, ५, २२; आपथौ
 १, २५, ८; ६, ६, ८; बौथौ १,
 १० : ७; ३, ५ : ६; २७, १२ :
 २२; माथौ १, २६, ४; ६, १०,
 ९; माथौ १, ६, १, २०; वाथौ १,
 ५, २, २०; -तान् माथौ ३, ४,
 ८; -ताम् माथौ ९, १८, १२;

-ते आथौ १, १२, ३१; बौथौ
 २७, १ : २०; हिथौ १५, ४,
 ४७; आमिगृ २, ७, ९; ७; २९;
 भागृ ३, १८ : १०; १९ : १५;
 वैथ २, ९, २; -तौ निस् ६,
 १२ : ७.
 अन्तर-इत्य या २, १०.
 अन्तर-इ(ता>)लⁱ- लम् शांथौ
 १, १२, ३.
 अन्तरी(रू✓ई), अन्तः...ईयसे या
 ६, १७^h.
 अन्तर-उक्थ्य^j- -क्थ्यः बौथौ २५,
 २४; १; काथौसं ३०; ६; -क्थ्यम्
 आथौ ९, ६, १; दाथौ ८, १, १६;
 लाथौ ४, ५, १६.
 अन्तर-उपसत्क^k- -त्कः बौथौ २५,
 २८ : २१; -त्कम् बौथौ २५,
 २८ : १९.
 अन्तर-ऋच^l- -चम् निस् ३, ११;
 २२.
 अन्तर-ण्वो(व-ऊ)ण्मन्^m- -ण्माणम्
 माथौ १, ८, ३, ३०.
 अन्तर-ण् गा, अन्तर्गात् आपथौ ६,
 ८, ११; अन्तरगाम आपथौ ३,
 ११, २; बौथौ १, २१ : २०;
 वैथौ ७, ११ : ९; हिथौ २,
 ६, ७.
 अन्तर-गिरि- > ँरि-महागिरिⁿ-
 -रिम् अप ५०, १, ५.
 अन्तर-गोष्ठ^o- -ष्ठे मागृ १, १०, ५;
 २, १२, ९.

a) कस. > बस. । b) अन्तरार्थत्वात् इति आन. जीसं. प्रयासं. । c) द्वस. > षस. । d) सस. ।

e) पाठः ? । अन्तराल-व्रात्या- L द्वस.] > -त्याः इति c. । f) सपा. शांथु ३, २, २ अन्तरेण इति पाठे. ।

g) अन्तरयिष्य^o इति पाठः ? यनि. शोधः (तु. मूको.) । h) पाठे. वैप १ पुरापूतम् मा १, १६ टि. द्र. ।

i) अस. वा. क्वि. । j) नाप. (स्तोम-विशेष-) । बस. । k) विप. । (अग्निचय-) । बस. ।

l) अस. समासान्तः अः प्र. (पा ५, ४, ७४) । वा. क्वि. । m) विप. (L अत्रोद्धितनिश्वास-] पशु-) ।

बस. पूष. निपात-समाहारः । n) विप. (राष्ट्र- Lपुं.]) । कस. पूष. च उप. च बस. । o) अस. ।

उप. नाप. ।

वैप ४ प्र-२८

†अन्तर-गोष्ठ, छा^a - छाद्य मागृ
२, १२, ९; -छासु गो २, २८.
अन्तर-घण, न^b - पा ३, ३, ७८.
अन्तर-जल^c - ल्हे वाध ६, १७;
शंघ १०६; ४६३; बौध ४, ४, २-
८; गौध २४, १४; शुअ ३, ४८.
अन्तर्जल-गत - तः आमिगृ २,
६, २ : २२; बौगृ ३, ३, ५, ९, ३;
बौध २, ५, १२, १०, ३२, ३, ४, ७.
‡अन्तर-जानु^d - नु आमिगृ २, ६,
१ : ३; वागृ ६, ३५.
२अन्तर-जानु^e - नुः शंघ ११६ :
१, ७०; विध ६२, ५.
अन्तर-ज्योतिस्^f - तिः वाधूश्री
३, २५ : १; २.
‡अन्तर-दाव^g - वे कौस् ३१, ३;
अप ३२, १, ३; अश्र ६, ३२.
अन्तर-दिवाकीर्त्य^h - त्यै पागृ २,
११, ४.
अन्तर-दिशⁱ - दिक्षु मागृ २, ५, ३.
अन्तर-देश^j - शम् कौस् ८७, ७;
१४; -†शात् अप ३२, १, १७;
१८; ३७, १२, १; अश्र १५, ५;
-शोभ्यः कौस् ४९, ९१; ७४, ७;
अप्राय २, ९; अप १२, १, ८;
अश्र ४, ४०१.
अन्तर-घा, अन्तर्घत्ते बौश्री १४,
१० : ६१; अन्तर्दधाति काश्री
५, २, १५; ९, ४, २३; आपश्री;
अन्तर्दधते गोगृ ३, १, ३०; द्रागृ
२, ५, २०; अन्तर्दधति बौश्री
९, ३:२; १३:१३; †अन्तर्दधे

बौश्री २, १०:३^h; ४^h; आपमं २,
१९, ४^h; ६^h; कौगृ ३, १५, ५^h;
आमिगृ ३, १, १ : १५^h; १७^h;
कागृ ६३, ४^h; बौगृ २, ११,
२६^h; २७^h; भागृ २, ११ : १४^h;
१६^h; हिगृ १, १०, ७^h; अश्र ८,
५; †अन्तर...दधे बौश्री २, १०:
२; ४; ५; कौगृ ३, १५, ५^h; शांगृ
३, १३, ५^h; आपमं २, १९, २; ४;
६; आमिगृ ३, १, १ : १५^h; १६;
१८; बौगृ २, ११, २५-२७; भागृ
२, ११ : १३; १५; १७; हिगृ २,
१०, ७^h; †अन्तर(दधे)^k बौश्री
२, १० : ३; आपमं २, १९, ४;
आमिगृ ३, १, १ : १५; बौगृ २,
११, २६; भागृ २, ११:१४; हिगृ
२, १०, ७; †अन्तः...दधामि
बौश्री ७, ६ : २३; †अन्तर
(दधामि) बौश्री ७, ६:२४; शुअ
१, ४४२; †अन्तर...दधताम्^l
आगृ ४, ६, १०; अन्तर्दधि पागृ
२, ६, २९^h; अश्र ११, १२^h;
अन्तर...अदधात् वाधूश्री ४,
२६ : १; अन्तर्दधीत पागृ २,
८, ५; जैगृ १, १६ : ४; १७ : ७;
अन्तर्दध्यात् बौश्री २४, ३१ : ५;
माश्री १, १, ३, ३७; २, ३, ३, ११;
अन्तर्दध्युः बौश्री २३, ७ : ८^h.
अन्तर्दधीयते जैगृ २, ८ : २४;
बौध ३, ९, १७; या १२, ११;
अन्तर्दधीयते काश्रीसं ३३ : १८.
अन्तर-धान - नम् काश्री ३, ७,

८; काठश्री १२१; -नात् बौश्री
६, ७ : १५.
अन्तर-धाय आश्री १, ८, २;
आपश्री.
अन्तर-धि^m - †धिः आपश्री
१५, ८, ४; बौश्री ९, ७ : २१;
माश्री ११, ८, ६; माश्री ४, २,
२३; वैश्री १३, ९ : ३; हिश्री
२४, ३, ३; कौस् ७२, १३;
अश्र १२, २; अपं ३ : २१;
-धौ आश्री १२, ७, ७^h; आपश्री
१४, ८, ३; २१, २३, ८; माश्री
३, १५, ६; हिश्री १०, ८, ८;
१६, ८, १०; पा १, ४, २८; ७१.
अन्तर्धिन्ⁿ - धिने आपध १,
३, ४१; हिध १, १, ११७.
अन्तर-धीयमान - ने वैश्री १२,
६ : ३.
अन्तर-हित, ता - तः वाधूश्री
३, ७० : ८; द्राश्री ३, ४, ३१;
लाश्री १, १२, १७; -तम् बौश्री
१६, २२ : ३; बौगृ ४, ९, ६; कौस्
८६, १४^h; अप्राय ५, १; या ४,
२५; ऋप्रा ३, १७; - ?तयोः^o
भास् ३, ३; -तस्य अप ४८,
१०७; -†ता^k कौगृ ३, १५, ५;
शांगृ ३, १३, ५; -ताः आश्री
४, १, १९; कौगृ ३, १५, ५^h; ५^h;
शांगृ ३, १३, ५^h; -ताम्
अप्राय ४, २; -तायाम् कौगृ ३,
११, २५; मागृ १, २३, १७; -ते
काश्री २, ६, ९; बौश्री ९, ८ :

- a) वैप १, परि. च द्र. । b) नाप. (वाहीकेषु देश-विशेष-) । उस. । c) अस. । d) अस. वा. क्वि. । e) 'अन्तर्हस्ते जानुनी यस्य' इति तस. (पा २, १, ७२) । f) विप. । बस. । g) नाप. (अवान्तर-दिश-) । मलो. कस. । h) सपा. अन्तर्दधे <> अन्तर्हिताः इति पाभे. । i) सपा. अन्तर्दधे <> अन्तर...दधे इति पाभे. । j) अन्यतः...दधे इति पाठः? यनि., अन्यम् इति च शोषः (तु. सपा. शांगृ ३, १३, ५) । k) सपा. अन्तर (दधे) <> अन्तर्हिता इति पाभे. । l) पाभे. वैप १, १४७९ a द्र. । m) शो इति पाठः? यनि. शोषः । n) मत्वर्थायः इतिः प्र. उलं. (पा ५, २, ११६) । o) पाठः? अनन्तर्हितयोः इति Kielborn LIS १८६८, ४१८ ।

२१; वैश्रौ १३, १० : २१;
 बौध ४, ९, ८; पावा ४, १,
 ९३; -तेषु आश्रौ ६, ६, १२.
 अन्तर्हित-भास^a - -सम् या
 ६, ३५.
 ऋन्तर्-हित- -त्यै आपश्रौ
 १६, १६, २; १८, ८-९, २०;
 बौश्रौ ४, १० : ४; ५, ९ : २०;
 ८, २० : २३; १७, ३८ : १२.
 अन्तर्-धातु^b - -तु या २, २^c.
 अन्तर्-निर्वाध^d - -धम् आपश्रौ
 १६, १०, ९; वैश्रौ १८, ७ : २९.
 अन्तर्-बहिस्^e - -हिः वैश्रौ १३, ४ :
 १०; जैश्रौका १२८; -हिभ्याम्
 पा ५, ४, ११७.
 अन्तर्बहिर्-उपसत्क^f - -त्कः
 बौश्रौ २५, २८ : २४; -त्कम्
 बौश्रौ २५, २८ : २०.
 अन्तर्बहिर्-विराज^g - -जम्
 बौश्रौ २४, ३३ : १०; १२.
 अन्तर्-भाग^h - -गम् निस् ३, ५ :
 १; ५; ८.
 अन्तर्-भागⁱ - -गः निस् ३, ५ : ९.
 अन्तर्-महावत^j - -तः आपश्रौ २२,
 २१, १२.
 अन्तर्-मांस^k - -सम्^l वैश्रौ १२,
 ८ : ७; हिश्रौ ७, १, ४४;
 -साभ्याम् आपश्रौ १०, ८,
 १२^h; -से काठश्रौ ७६.
 अन्तर्-मायु^l - -यु माश्रौ २, २, ३,
 २२.
 अन्तर्-मिथुन^m - -नानि बौश्रौ २१,

१ : ३; २५, १ : ८.
 अन्तर्-मुखⁿ - -खः बौध २, १०,
 ५७.
 अन्तर्-यच्छ, यम्, अन्तर्यच्छतु
 आगृ ३, ६, ८¹; ऋन्तर्यच्छ शाश्रौ
 १८, ११, २; आपश्रौ १२, १३,
 ७; बौश्रौ ७, ६ : २२; माश्रौ २,
 ३, ४, २५; वैश्रौ १५, १४ : ९;
 हिश्रौ ८, ३, ४८; अन्तर्(यच्छ)
 शुअ १, ४४१¹.
 अन्तर्-याम^o - -मः वाधूश्रौ ४,
 ७७ : ५; -मम् आश्रौ ५, २,
 २; शाश्रौ ६, ८, २; काश्रौ ९, ४,
 २८; २९; २४, ३, ३६; आपश्रौ
 १२, १३, ५; १२; १८, २०; १६,
 १८, ४¹; बौश्रौ ७, ६ : २०; १५,
 २२ : ८; माश्रौ २, ३, ४, २५;
 ६, १, ५, ३५¹; वाधूश्रौ ४, ७७:
 ४; ७; वैश्रौ १५, १४ : ८; १५ :
 २; २२ : ३; १८, १५ : ११;
 हिश्रौ ८, ३, ४८; ५७; ५, १९;
 ११, ६, २६¹; -मस्य आपश्रौ
 १२, १, ८; हिश्रौ ८, १, १९; २०;
 -मात् १, १२, १९; शाश्रौ ६,
 ६, २१; काठश्रौ १४७; बौश्रौ
 १५, २२ : ८; माश्रौ २, ३, ५,
 १; -ऋंमे बौश्रौ ७, ६ : २३;
 -मेण बौश्रौ २५, १७ : १९;
 तैत्रा ७, १०.
 अन्तर्याम-ग्रहण- -णम् काश्रौ
 ९, ६, १.
 अन्तर्याम-पात्र- -त्रम् बौश्रौ

७, २ : ९; १४, ८ : २०; माश्रौ
 २, ३, ४, ३०; वैश्रौ १५, २ : ३;
 -त्रे माश्रौ २, ५, १, ३८; -त्रेण
 आपश्रौ १३, १३, १; बौश्रौ ८,
 १३ : २; ३; हिश्रौ ९, ३, ५५.
 अन्तर्याम-होमा(म-अ)न्त-
 -न्ते वैश्रौ २१, ९ : ५.
 अन्तर्यामीय- -यम् वैताश्रौ
 १६, ११.
 अन्तर्-यज्ञ^p - -ज्ञम् वाधूश्रौ २,
 १५ : २.
 अन्तर्-या, अन्तर्यामि काश्रौ ४,
 ७, १७¹.
 अन्तर्-लोम^q - -पा ५, ४, ११७.
 अन्तर्-लोमन्^r - -म कौस् ८१,
 १; -म्ना बौश्रौ १७, ३९ : २२;
 २१, १२ : २०; आम्रिगृ १, ३,
 २ : २; आपगृ १२, १; भागृ
 २, १८ : ९.
 अन्तर्-लोमन्^s - > °वत्-
 -वति शाश्रौ १२, २२, १¹.
 अन्तर्-वण(<न)- -पा ६, २,
 १७९; ८, ४, ५.
 अन्तर्-वत्^t - -पा, पावा ४, १, ३२.
 अन्तर्वत्नी^u - -ऋंती माश्रौ १,
 ५, २, ३¹; वाश्रौ १, ४, १, २०¹;
 वागृ १६, १०; -तीम् आपश्रौ
 १९, १३, १४; बौश्रौ १९, ५ : २९.
 अन्तर्वत्नी^v - -पा ४, १, ३२;
 -ऋंती आपश्रौ ५, ८, ६¹; बौश्रौ
 २, १५ : ८¹; हिश्रौ ६, ५,
 १०¹; गो २, १४; -ऋंतीः आपध

a) विप. । बस. । b) अस. । c) °तुः इति ल. ? । d) द्वस. । e) नाप. (कमे-विशेष-) ।
 बस. । f) अम. वा. क्वि. । g) वैप १, परि. च द्र. । h) सपा. °सम् <> °साभ्याम् इति पाभे. । i) विप.
 (सदस्-) । बस. उप. <√मा (माने) । j) सपा. तैत्रा ३, १०, ८, ९ मंत्रा १, ६, ३४ आपश्रौ १७, २३, ११
 हिगृ १, १७, ४ अन्तस्तिष्ठतु इति, मागृ १, ३, २ ? अन्तस्तिष्ठतः इति च पाभे. । k) सपा. तैत्रा ३, ७, ५, ४ अन्तरेमि इति
 पाभे. । l) विप. । बस. समासान्तस्य प्र. अभावः उरसं. (पा ५, ४, ११७) । m) कस. । n) पाभे. वैप १ परि.
 अन्तर्वत्नी काठ ७, १२ टि. द्र. ।

२, ४, १२; बौध २, ७, १९;
हिध २, १, ६५; -न्याः विध
३६, १; -न्याम् बौपि ३, ९, १.
अन्तर्वत्-पतिवत्- -वतोः पा ४,
१, ३२.
अन्तर-वसु^१- -सुः काश्रौ २३, २,
१०; -सुना आपश्रौ २२, १८,
९^b; -सुनाम् हिश्रौ १७, ७, ४^b;
-सौ निम् ८, ८ : ३७.
अन्तर-वस्व^२- -स्वम् वाश्रौ १, ३, २,
२१.
अन्तर-वास^३- -सः वाध १२, १४^c;
-सम् वौश्रौ १८, ४४ : १५, १६;
४५ : ९, २१.
अन्तर्वासिन्^४- -सी बौध १,
३, २^e.
अन्तर-विकारा(र-आ)गम^५- -मम्
शुप्रा ४, २३.
१ अन्तर-विध^६- -धम् वैश्रौ १८,
१६ : ३४; -धात् आपश्रौ १६,
२०, ५; हिश्रौ ११, ६, ५२; -धे
आपश्रौ १६, २१, १२.
२ अन्तर-वि(ध>)घा^७- -धाः
निम् ९, २ : २६, २७.
अन्तर-विराज^८- -जम् वौश्रौ २४,
३३ : ९.
अन्तर-वृत्>अन्तर-वर्त^९- -र्ताः

आपश्रौ ११, ८, ३; १०, १४;
बौश्रौ ६, २७ : २०; हिश्रौ ७,
५, २८; ७, २१; -र्तान् बौश्रौ
६, २७ : १९.
अन्तर-वेदि^{१०}- -दि आश्रौ २, ४,
१५; दाश्रौ १०, १, १८^k.
अन्तर-हण्(<न)^{११}.
अन्तर-हस्>अन्तर-हसत्-
-सन् वौश्रौ २०, १ : ५६; ५ : २२.
अन्तर-हिर(रय >)ण्या^{१२}- -ण्याम्
वौश्रौ ११, २ : ६; २५, ३३ :
८; ९.
अन्तश्-चाण्डाल^{१३}- -लम् आपध
१, ९, १५; हिध १, ३, १५.
अन्तश्-छिन्न- -न्नम् कौस् ७२, १.
अन्तश्-शौच^{१४}- -चम् वौध १, ५,
३; ३, १, २२.
अन्तः-शब्द^{१५}- -ब्दस्य पावा १, ४,
६५.
अन्तः-शर्कर^{१६}- -रम् वौश्रौ १०, २० :
३; २३ : २२; २५; २४ : ३; ५; ७;
२५ : १८; २६ : २; ४; ६; १७,
२९ : ३; १४; १९, १ : २४; वैश्रौ
१८, १४ : ३८; ३९; ४१; आग्निम्
३, ८, २ : ३^l; बौपि १, १५ :
१४.
अन्तः[शु]-शव^{१७}- -वः जैश्रौ १ : ८;

९; -वम्^{१८} आपध १, ९, १४;
हिध १, ३, १४; -त्रे कौग् ३, ९,
२२; शाग् ४, ७, २४; पाग् २,
११, ४; कौस् १४१, ३८; आपध
१, १६, २०; विध ३०, १०; वैध
२, १२, ३; हिध १, ५, १९.
अन्तः-शव-दिवाकीर्त्य^{१९}- -त्येषु
वाध १३, ११.
अन्तः-शस्त्र^{२०}- -स्त्रम् आश्रौ ५, ९,
२; १०; शाश्रौ ७, १९, ७; ८,
३, ६.
अन्तः-शाल^{२१}- -लम् वौश्रौ ६, ३० :
८; ११, २ : १३; १४, ९ : २३.
अन्तः-शा(लक >)लिका^{२२}- -काः
वौश्रौ २६, २८ : ११.
अन्तः-श्लिष्>अन्तःश्लेष^{२३}- -षः
माश्रौ ६, १, ८, ८; वाश्रौ २, १,
६, ३४; वैश्रौ १८, १७ : ४२.
अन्तस्-तन्त्र^{२४}- -न्त्रम् काश्रौ २५,
१०, १; वौश्रौ २३, ८ : २७; -न्त्रे
अप्राय ३, ९.
अन्त-स्प(न्या >)न्य^{२५}- -न्यम् वौशु
१० : १३.
अन्तस्-सं(ज्ञा >)ज्ञ^{२६}- -ज्ञानाम्
गौध ८, २.
अन्तः-सदस्^{२७}- -दः शाश्रौ १७, ४,
३; -दमः^{२८} माश्रौ २, २, ४, ४;

a) नाप. । बस. । b) सपा. *सुना<>*सुनाम् इति पाभे. । c) अम. वा. क्रिवि. । d) नाप. । मलो. कप. उप. <√वस् [आच्छादने] । e) सपा. *सः<>*सी इति पाभे. । f) विप. (स्नातक-) । मत्वर्थीयः इनिः प्र. । g) विप. । मलो. बस. उप. द्रस. । h) अस. । उप. परिधि-पर्यायः स्यादिति कृत्वा =*परि-धा-> नैप्र. विधा- इति (वैतु. ८. = अन्तःप्रदेश- इति) । i) विप. । बस. । j) वैप १ द्र. । k) पाभे. पृ २१५ i द्र. । l) पा ८, ४, २४ इत्यत्र परामृष्टः द्र. । m) 'अन्तर्गतः (काले वा प्राभे वा) चा' इति कृत्वा कस. । स यथा भवति तथा सति इत्यर्थे न. द्वि१ सत् वा. क्रिवि. (=तद्विशिष्टे काले वा प्राभे वा; वैतु. हरदत्तः अस. वा सप्तम्यर्थे प्र१ वेति ?) । n) मलो. कस. । o) कस. । p) *कर्माम् इति पाठः ? यनि. शोधः (तु. बौश्रौ. प्रमृ.) । q) अन्तश्चा° टि. दिशा द्र. । r) अस. वा. क्रिवि. । उप. <√शंस [स्तुतौ] । s) विप. (आहुति-) । तत्रभववीयो बुन् > अकः प्र. उसं. (पा ४, ३, ६०) । *लीकाः इति पाठः ? यनि. शोधः (तु. मूको. भवस्वामी च) । t) अस. वा. क्रिवि. । विसर्गलोपः (पावा ८, ३, ६३) । उप. =रज्जु- । u) नाप. (वर्णसंकर-जाति-) । बस. । v) अस. । w) विप. [सदोऽन्तर्गत- (धिष्य- [अभि-])] । प्रास. ।

अप्राय ६, १.

अन्तः-सदस^० - सम् बौश्रौ ६, २९;
९; हिश्रौ ७, ७, २९; १०, ४,
५७; ६०; ६२; -सात् आपश्रौ
२१, ९, ४; हिश्रौ १६, ४, ५.
अन्तः-साम-निधन^० - नानि लाश्रौ
७, ८, ५.

अन्तः ✓स्था, !अन्तस्तिष्ठतः मागृ
१, ३, २१^०; ऋअन्तस्तिष्ठतु^d
आपश्रौ १७, २३, ११; हिगृ १,
१७, ४.

ऋअन्तःस्थुः आपश्रौ ६, २४, ८;
भाश्रौ ६, ५, १; माश्रौ १, ६,
३, १०; वाश्रौ १, ५, ४, ३०;
हिश्रौ ६, ७, २.

अन्त [:] -स्थ, स्था^० - स्थम्
याशि २, ९२; -स्थया शैशि ९४;
-स्था निम् १, ५ : १८; ऋप्रा
१२, ७; शौच ३, ३९; या २, २;
-स्थाः निम् २, १२ : २४; अप
४७, १, ३; ९; १६; ३, ६; ऋप्रा १,
९; ६, १९; गुप्रा ८, १४; तैप्रा १,
८; उम् १, ४; आशि ३, ५; ४, ४;
५; ६, ११; शैशि २७; याशि २,
१; २; ७; -स्थानाम् शौच १, ३०;
माशि ६, ९; -स्थाभिः पाशि
१६; शैशि ६७; २६१; ३३८;
याशि २, ५७; -स्थाभ्यः भाशि
३१; -स्थाम् ऋप्रा २, २१; १४,
५०; गुप्रा ४, १०; ४६; ऋत
३, ५, ९; शैशि २८६; -स्थायाः
ऋप्रा ६, ४२; गुप्रा ३, १३०;

-स्थायाम् ऋत ४, ४, ११;
-स्थासु आश्रौ १, २, १७; ऋप्रा
४, ७; गुप्रा ४, १०; शैशि
४५; २८०; २८६; -स्थेषु अप
४७, २, १०; -स्थैः याशि २,
९६.

अन्तस्थ-यम^१-वर्जम् याशि
२, ९१.

अन्तस्थ-यम-संयोग^६ - नो
याशि २, ९२.

अन्तस्थ-वर्ण-कार^० - रः
आशि ५, २.

अन्तस्था-च्छन्दस्^१ - न्दांसि
निम् १, ५ : १४; २२.

अन्तस्था(स्था-आ)द्य- -द्यः
याशि २, ५८.

अन्तःस्था(स्था-आ)पत्ति-
-त्तौ शौच ३, ५८.

अन्तस्था-पर- -रः तैप्रा ५,
२८; -रम् तैप्रा २०, ७.

अन्तःस्थी ✓भू > अन्तःस्थी-
भाव- -वे गुप्रा ४, ४९.

अन्तःस्थो(स्था-ऊ)ष्मन्- -ष्मसु
शौच २, ३२.

अन्तः-स्वक्ति^१ - क्तिषु कौस् ३४,
२३; ३८, १३.

अन्तः-स्वाहा-कार^६ - -कारान्
बौश्रौ २०, ५ : २५; २३,
१५ : २.

अन्ता-रस^१ - सैः वृदे २, ४३.

अन्तर, रा^m - पाग २, १, ४०^m; ४,
३, ५४; -ऋः शाश्रौ १, १५,

१७; काश्रौ २, २, २१; आपश्रौ
३, १३, १; १४, २९, ३; २४,
१३, ३; भाश्रौ ३, १८, ११;
वाश्रौ १, १, ४, २१; हिश्रौ २,
८, ४२; १५, ७, १६; अप्राय ५,
६; अप ४०, ३, ३; -रम् आश्रौ
३, १०, १५; काश्रौ १, ८,
३१; १४, ५, ४; १६, ७, १३;
२५, ११, २१^१; ऋआपश्रौ १,
६, ८; १४, २६, १^२; बौश्रौ
२८, ९ : २०^१; भाश्रौ १०,
४, ३; माश्रौ १, ३, ३, ९; ३,
५, ७; वैश्रौ १, १८ : ४; १६,
१८ : १७; २१, २ : ६; आपगृ
४, ५; १२, ८; भागृ २, २० :
८; २१ : ११; हिपि २३ : ५;
जगृ १, १२ : ३१; ५०; कौस्
६८, १५; १६; अप १, ४३, २;
वाध ११, २५; शंघ ४२; ३०८;
आपध २, २५, ५; वीध १, १,
२६; हिध २, ५, १८३; काशु
१, २७; ७, ३५; वृदे ४, ६९;
८२; ६, १२३; या १४, १०^१;
पा १, १, ३६; ६, २, १६६;
पाग १, १, २७; मीस् १०,
६, ३४; -स्मिन् वंगृ २,
१० : ९^१; -स्मै बौपि १,
१ : २; -रस्याम् आपश्रौ १९,
१२, ३; ५; ९-११; १३; १४;
हिश्रौ २३, २, १४; १६; १८;
२०-२२; २४; २५; आपध २,
२५, ३; हिध २, ५, १८१;

a) वैप १ द्र. । b) तस. पूष. अय. । c) पाठः ? अन्तस्तिष्ठतु इति शोधः । (तु. BC.) ।

d) पाभे. पृ २१९ j टि. द्र. । e) नाप. पुं. स्त्री. (संज्ञा-विशेष-, छन्दो-विशेष- [निम्.]) । उस. उप कः

प्र. (पा ३, २, ४), स्त्री. टाप् प्र. विशेषः । पावा ८, ३, ३६ विभाषया विसर्गलोपेन यनि. रूपम् द्र. । f) द्रस. ।

g) द्रस. > षस. । h) कस. > उस. । i) मलो. कस. । j) = गृहाभ्यन्तर-क्रेण । मलो. कस. ।

k) विप. वस. । l) नाप. । मलो. कस. । m) वैर १, परि. च द्र. । n) अन्तर इति

पाका. ।

-राः काश्रौ १७, ११, ८; विध २१, ४; -राणि काश्रौ ८, ८, ६; आपश्रौ २४, २, १३; बौश्रौ २५, १ : १६; माश्रौ १, १, १, २; वाश्रौ १, १, १, १३; ३, ३, १, २८; २९; हिश्रौ १, १, ५६; अप ५८, ३, ८; -रान् आपश्रौ १४, २९, ३; १५, ७, ९; बौश्रौ ९, ७ : १४; भाश्रौ ११, ८, १; हिश्रौ १५, ७, १६; अप्राय ५, ६; -राम् काश्रौ ७, ३, २२; आपश्रौ १६, ३२, १; अप्राय ४, २; -राम्-राम् आपश्रौ १६, ३२, २; वैश्रौ १८, २० : ६१; ६४; हिश्रौ ११, ८, ५, ६; -रासु अत्र १७, २, ५; -रे वैगृ ७, ४ : २; अप ६८, ५, २२; ७०, ११, २; वाध १, १२; विध ५, १२१; तैप्रा ५, ४०; ९, १६; शैशि ३०८; ३१३; याशि १, १३; -रेण^१ आश्रौ १, ३, १२; आपश्रौ १२, १, १५^२; वाश्रौ १, २, २, ११; २, १, ७, १४^३; वैश्रौ १०, १३ : ३^४; शगृ ३, २, २^०; पा २, ३, ४; पाग १, १, ३७; पावा ६, १, १३२; -रेषु निस् १, ५ : १४. आन्तर्यं-र्यम् पावा १, १, ५०; -र्येण शौच १, ९५.

अन्तर-कल्प^१-ल्पम् मागृ १, ५, १. अन्तर-कोश^२-शम् बौश्रौ १४, १४ : १४; -शे हिश्रौ १५, ८, २४. अन्तर-तम-तमः पा १, १, ५०; -मौ बौध १, ७, १०. आन्तरतम्य-म्यात् पावा ७, १, ९६; २, ८४. आन्तरतम्य-निवर्तक-त्व-त्वात् पावा ७, ३, १. अन्तरतम-निवर्तक-के पावा १, १, ५०. अन्तरतम-वचन-नम् पावा १, १, ५०^३. अन्तर-तस (>) काश्रौ २, ६, ३९; आपश्रौ २, ४, ४-६; × × अन्तर-त्रि-भागो (ग-ऊ) ना^४-नया काशु १, २९. अन्तर-परिधि^५-धि आग्निगृ १, ७, ३ : ३२. अन्तर-पुरुष^६-पम् या २, ३. अन्तर-वी(थि >)थी^७-थीषु अप ५२, २, १. अन्तर-स्थ^८-स्थेन विध १, ३६. अन्तरा^९ आश्रौ; आपश्रौ ७, १५, १०^१; १०, २८, ३^२; भाश्रौ ७, ५, २^३; लाश्रौ ५, ४, १४^४; बौगृ ४, २, ७^०; अप्राय १, ३^१; ३, ३; १०^५; पा २, ३, ४; पाग १,

१, ३७; अन्तराऽअन्तरा माश्रौ ६, २, २, २१; जैश्रौका १५५. अन्तर(रा-अ)न्तरेण-युक्त-क्ते पा २, ३, ४. अन्तरा-शृङ्गा^६-ङ्गम् काश्रौ ६, ३, २४; वाश्रौ १, ६, ४, २२; -ङ्गात् माश्रौ १, ७, ३, ३५; वाश्रौ १, ६, १, ३६. अन्तराशृङ्गी(य >)या^७-याम् आपश्रौ ७, ६, १. अन्तरे(रा-ई)प^८-षेण आपश्रौ १२, १२, ६. अन्तरा(र-अ)र्थे^९-र्थस्य मीस् १०, ८, ६४. अन्तरी^{१०}कृत्य माश्रौ ४, ४, ३; वैगृ ५, ८ : ५; वैध ३, ८, १ अन्तरीय-यम् निस् ९, ६ : २५; हिगृ १, ९, १०; १०, ५. अन्तरीयै(य-ए)कदेश-शस्य गोगृ १, २, २१. अन्तरे-शा(रा >)णा^{११}-णाम् काश्रौ १६, ४, ३१. ?अन्तरौ हिश्रौ १७, १, ३२^१. अन्तर्यं-पा ४, ३, ५४. अन्तर-अयण-अन्तर्^{१२}इ. द्र. अन्तर्-आगम-प्रभृ. अन्तर् द्र. अन्तरिक्ष^{१३}-क्षम् आपश्रौ ७, १५, १०; माश्रौ १, ८, ३, २७; वाश्रौ; -क्षम् आश्रौ; आपश्रौ ७, २७, ४^{१४};

a) एनअन्तं वा सदृ वा. क्विचि. (पा ५, ३, ३५)। b) सपा. वैश्रौ १५, २ : १० तन्मध्ये इति पाभे.। c) अन्तरे, न इति ?संस्कृतुः शोधश् चिन्त्यः (तु. माश्रौ ६, १, ७, ३२)। d) सपा. अन्तरेण <> अन्तरा इति पाभे.। e) पाभे. पृ२१७ f द्र.। f) सप्त. वा मलो. कप्र. वा। g) नाप.। कप्र.। h) सप्त. उप. तुस.। i) अस. वा. क्विचि.। j) मलो. कस.। k) विप.। उस. उप. <✓स्था। l) वैप १, परि. च. द्र.। m) ईषे [द्विर] इत्यन्वितः कप्र. (तु. सप्र. बौश्रौ ६, १६ : ३ प्रभृ. अन्तरेण इति, जैश्रौ ३:४; ९:१३ अन्तर् इति, काश्रौ ७, ९, १२ ईषान्तरे इति च पाभे.)। n) अन्तरम् इति पाठः? यनि. शोधः (तु. मा १९, ४१)। o) प्रच्युतः पाठः प्रकरणाद् अवगन्तव्यः। p) सकृत् सूचिकृता उत्तरेण समस्तं मतं, तच्चिन्त्यम्। q) पाभे. पृ २१५ l द्र.। r) विप. (ऊर्णास्तुका-)। तस्येदमीयश् छ > ईयः प्र. उसं. (पा ४, ३, १३८)। s) विप.। बस.। उप = तृण-विशेष-द्र.। t) पाठः? अन्तरा इति च ऊरौ इति च द्विपदः शोधः। u) पाभे. वैप १ परि. तै १, ३, ८, १ टि. द्र.। v) पाभे. वैप १ स्वरं मा ६, २१ टि. द्र.।

हिय २, ११, ४; विध ७३, १८^a;
अअ २, १२; छ, ३९^b; या १४,
३१^c; -क्षस्य शांश्रौ; आपश्रौ
७, ११, ९^d; -क्षानाम् भाग्य २,
१:६; -क्षाणि अप ६१, १, २८;
-क्षात् आश्रौ १, ३, २२; शांश्रौ;
-क्षाय आश्रौ २, ३, ८; शांश्रौ;
-क्षे शांश्रौ छ, १२, ३^e; XX-क्षेण
आश्रौ १, ७, ७^f; शांश्रौ; -क्षेषु
आपश्रौ १६, ३०, १; वैश्रौ.
आन्तरिक्ष- -क्षम् अप ४१, ५,
७; ६४, १, ३; ७१, १९, ६;
-क्ष्मा: आपश्रौ २०, १४, ६; हिय
२, १६, ६; -क्षानाम् कौद्य छ, २,
३^g; शांग्य छ, १५, १४^h; हिय २,
१६, ४ⁱ; अप ५८^j, १, २; -क्षान्
शंघ ११६:२६; अप ७१, १, १;
-क्षेभ्य: जैश्रौ १०:६; -क्षै: आप-
श्रौ १४, १७, १; हिश्रौ १५, ५, १.
‡अन्तरिक्ष-क्षिन्^k -क्षिते बौश्रौ
१५, २ : ११; हिश्रौ १४, १, १३.
‡अन्तरिक्ष-गत^l -तान् वैद्य ५, १४:
७; -तेभ्य: वैद्य २, २ : ११; ५,
१४ : १४.
अन्तरिक्ष-ज^m -जम् अप ५१, ५, ३.
‡अन्तरिक्ष-दाⁿ -दा: आपश्रौ १७,
५, १६; वैश्रौ १८, २१ : १७;
हिश्रौ ११, ८, १०.
अन्तरिक्ष-नामन् -मानि निघ १,
३; या २, १०.
अन्तरिक्ष-प्रवा(द>)दा^o -दा निस्
७, ७ : २५.

‡अन्तरिक्ष-प्रा^p -प्राम् ऋश्र २,
१०, ९५.
‡अन्तरिक्ष-या(न >) नी^q -नी
बौश्रौ १०, ४१ : १६; हिश्रौ १२,
१, ११.
अन्तरिक्ष-लिङ्ग^r -ङ्गेन आपध २, ४,
२; हिध २, १, ५५.
अन्तरिक्ष-लोक- -क: शांश्रौ १६,
२१, १४; वाधूश्रौ २, ९ : १; छ,
५४ : ४; १०६ : १; हिपि ७:
५; अप ४८, १४१; या ७, १०;
-कम् शांश्रौ १४, १८, १; १६,
८, २०; वाधूश्रौ ३, १३ : ६; छ,
१६ : ६; ६३ : ७; बौपि १, १३ :
९; अप ४१, २, ९; -कस्य आश्रौ
८, १३, १४; या ११, ३६; १२,
७; -के वाधूश्रौ ३, १३ : ७; छ,
११ : १९; १६ : ६^s; ५४ : ४;
आग्य छ, ४, ३; या ७, २६; -केन
शांग्य १, १६, ३.
‡अन्तरिक्ष-सद्^t -सुत् या १४, २९;
-सदे भाग्य २, ३० : ७; ८; हिय
१, १६, ११^u; -सद्भ्य: आपश्रौ
१, ९, ६; बौश्रौ २४, ३२ : १४;
माश्रौ १, ९, १; माश्रौ १, १, २,
२२; वाश्रौ १, २, ३, १९; हिश्रौ
२, ७, ३०; आग्निय ३, १, ३:१०;
हिय २, १२, ४; गोद्य छ, ३, १०;
जैद्य २, २ : १०; बौस् ८७, ८.
?अन्तरिक्ष-सम- -मम्^v बौध २,
८, १२.
अन्तरिक्ष-स्थ^w -स्थक् बौश्रौ ९,

१० : ५.
अन्तरिक्ष-स्थान^x -न: या ७, ५.
अन्तरिक्षा(क्ष-आ)यतन, ना^y -ना
निस् ७, ७ : २५; -नानि या ७,
११.
अन्तरिक्ष्य, क्ष्या^z -क्ष्या: आपमं २,
१७, ८¹; आग्य २, १, ९^m; छ, ७,
१५; -क्ष्यान् आपध २, ७, १६ⁿ;
हिध २, २, ३५.
अन्तर-इत् -प्रभृ. अन्तर¹ द्र.
अन्तरीप^o - पा ६, ३, ९७; पाग्य छ,
२, १२७.
आन्तरीपक- पा छ, २, १२७.
अन्तरीय- प्रभृ. अन्तर- द्र.
अन्तर-ईष- प्रभृ. अन्तर- द्र.
अन्तर्थ- अन्तर- द्र.
*अन्तस्^p - > अन्तस्-पथ^q - -या:
ऋप्रा छ, ६२.
√अन्ति अन्त- द्र.
‡अन्ति^r शांश्रौ छ, १२, १०; आपश्रौ
६, २१, १; १४, १६, १; बौश्रौ
३, १८ : २३; २०, २४ : २९;
माश्रौ १, ४, २, ८; वाधूश्रौ ३,
४ : ५०; वाश्रौ १, १, ३, ८;
वैश्रौ ६, ११ : ६; हिश्रौ १५,
५, १; आपमं २, ४, ३; शांग्य ५,
५, १२; आग्निय १, १, २ : ५५;
३, ६, २ : २३; बौपि १, १० :
१८; हिय १, ४, १३; अप्राय ६,
१; आपध १, २, २; हिध १, १;
३५; या १४, २६.
अन्ति-क^s - पाग्य ६, ३, २; -कम्

- a) श्री० इति पाठः? । b) °क्षः इति पाठः?; यनि. शोषः । c) B.N. °क्षा इति? ।
d) पाभे. वैप १, १५७१ d द्र. । e) पाभे. वैप १ परि. अन्तरिक्षम् तै १, ६, ५, २ टि. द्र. । f) वैप १,
परि. च द्र. । g) विप. (पितृ-, पितामह-). द्वितीयासमासः । h) विप. । उस. । i) विप. । बस. ।
j) वैप १ द्र. । k) पाठः? °क्षं, समम् इति द्विपदः शोषः (तु. सप्र. हिय २, ११, ४) । l) आन्त० इति पाठः?
यनि. शोषः (तु. सूको. भू. xxiv च) । m) आन्त० इति पाठः? यनि. शोषः (तु. अग्रिमं स्थलम्) ।
n) आन्त० इति पाठः (तु. भाष्यम्)? यनि. शोषः (तु. हिध.) । o) नाप. । व्यु. ? । पाप्र. <अन्तर+२अप- इति &

भाश्रौ १०, १६, ३; वैश्रौ १५, ७ :
३; ८ : १; हिश्रौ ८, १, ७९;
विध २८, २१; या ३, १०१;
१४, २; -कस्य अप ४८, ७३;
निघ २, १६; पावा ६, ४, १४९;
-कात् आपश्रौ ९, १, २०; बौश्रौ
१३, ३ : ३; भाश्रौ ९, २, ३; ६, ६;
१४, ११; माश्रौ ३, ४, २; हिश्रौ
१५, १, २०; ३, २७; अप्राय ५, ३;
पाग १, १, ३७; -के बौश्रौ ७,
८ : १६; २०, २५ : १९; वैश्रौ
२, ३ : ६; हिश्रौ ७, १, ६८; बौगृ
१, ६, २२; कप्र ३, ४, ८; कौसू
१४१, ४०^०; विध ९७, १८; वृदे
६, १२२; या ३, ११^१; -केन
बौगृ १, ५, २१.

अन्तिक-जघ(न>)ता^० -नाम्
वाश्रौ १, ३, २, १.

अन्तिक-तम- मम् या ५, २८.

अन्तिक-नामन्^० -म या ३, ११;

-मानि निघ २, १६; या ३, ९.

अन्तिक-बाढ- -ढयोः पा ५, ३,
६३.

अन्तिक-वध^१ -धयोः या ३, १०.

अन्तिक-तम्^० अप्रा ३, ४, ११.

अन्तिक-तस(ः) या १०, ४६.

अन्तिक-गुरु- प्रभृ. अन्त- द्र.

अन्तिक-पाठ ४, १६४; -न्त्राणि वैश्रौ

१३, १७ : १०; आमिगृ ३, ५, १ :

२०; वृदे ७, ७९.

आन्त्र- -न्त्राणाम् आपश्रौ १५, १५,
१; भाश्रौ ११, १५, १७; हिश्रौ
२४, ६, १२; -न्त्राणि बौश्रौ १४,
२१ : ३२; २४, १३ : ९१; बौपि
२ : ६; वृदे ४, १२६; अत्र ११,
२१; -न्त्रेभ्यः आपमं १, १७, ३;
अत्र २, ३३१.
आन्त्री->आन्त्री-मुख^१ -खः^२
आमिगृ २, १, ३ : १५^१; जैगृ १,
८ : १७; वैगृ ३, १५ : ४; हिगृ
२, ३, ७.

अन्त् पाधा. भ्वा. पर. बन्धने.

अन्त्^१ - पाठ १, ९३.

अन्ध, पाधा. चुरा. अदन्तः दृष्ट्युप-
घाते.

अन्ध, न्धा^१ -न्धः आपश्रौ २०, ७,
१८; २२, २१, ९; बौश्रौ १९, १० :
३२; हिश्रौ १७, ७, २९; सु २२,
१; आमिगृ ३, १०, १ : ४; बौपि
३, ५, २; वाध १६, ३३; शंघ ३७५;
३७७ : २; विध ४५, १८; अत्र
११, ३(२); या १, १६; ५, १०;
१२, १४^१; १४, २०^१; -न्धम् या
५, २१^१; -न्धस्य वाध ६, ४;
आपध २, ११, ७; हिध २, ४, २३;
-न्धा कौसू ४, १६; -न्धाः विध
४५, ३२; -न्धाम् वैताश्रौ ३८,
६; -न्धे माश्रौ २, ५, ४, २४; शंघ
४४०; -न्धे वाधश्रौ ४, ६४ :
२; -न्धेन या ९, ३३^१.

आन्ध्य- -न्ध्यम् बौश्रौ २,
५ : ६.

अन्ध-कार^१ - पाग २, ४, ३१; ५,
२, ३६; -रे वाध ६, १३; -रेषु
विध ४३, ४०.

अन्धकारित- पाग ५, २, ३६.

अन्ध-जड-क्लीब-व्यसनि-व्याधिता
(त-आ)दि^१ -दीन् बौध २,
२, ३९.

अन्ध-ता- -ताम् वृदे ४, १५.

अन्ध-तामिस्त्र^१ -स्त्रम् विध ४३,
३; अत्र ८, १; -स्त्रे विध ९३,
१०.

अन्ध-मूक-बधिर-रोगाविष्ट^१ -ष्टाः
आपध २, २६, १६; हिध २,
५, २११.

अन्ध-भावुक^१ -कः कौसू ४, १६.

अन्ध^० -न्धः -न्धम् या ५, १०.

अन्ध-तमस^१ - पा ५, ४, ७९;
-सम् वाधश्रौ ४, ९९ : ११.

अन्धः^१ अप ४८, ११५; ११६; निघ
४, २.

अन्धक^१ ->अन्धक-वृष्णि^१ -वृष्णु
पा ६, २, ३४.

अन्ध-(क>)का^१ -काम्, -०के
अशां १, ४.

अन्धस्^१ - पाठ ४, २०६; -न्धः
आश्रौ ५, १४, ४; ६, ४, १०; ७,
११, २४; शांश्रौ ७, १९, ९; १७,
९, ३; काश्रौ ४, १२, ५^१; आपश्रौ

a) अस्थान्ति^० इति पूर्वेण संधिर् अर्षः । b) विप. (वेदि-) । बस. । c) पस. । d) द्रस. ।

e) वैप १, परि. च द्र. । f) नाप. (बालप्रह-विशेष-) । बस. । g) सपा. पागृ १, १६, २ हन्त्रीमुखः इति
पाभे. । h) अन्ध इति पाठः ? यनि. शोधः । i) नाप. (शृङ्खला-) । j) नाप. (नेत्र-हीन-) । व्यु. ? । वैप
१, २ अन्ध-द्र. । k) = २ अन्ध- । नाप. । उस. । l) विप. । बस. पूष. द्रस. । m) नाप. (नरक-विशेष-) ।
कस. । n) विप. (यजमान-) । उस. । o) नाप. (तमस्-) । व्यु. ? । p) नाप. (अन्धकार-) । कस. ।
समासान्तः अच् प्र. । q) स्वरूपम् अर्थश्च ? । अन्धस् (अन्ध-) इति वा अन्ध- (गतदृष्टि-) इति वा । r) नाप.
(वंश-विशेष-) । व्यु. ? । s) व्यप. (देवी-विशेष-) । व्यु. ? । t) पाभे. वैप १ परि. अन्धः मा
३, २० टि. द्र. ।

१२, १, ३; १७, ६, ३; वौश्री १०, ४६ : ३; वाश्री ३, ३, १; वैश्री १५, १ : ९; १९, ५ : २८; हिश्री ८, १, ३; अप्राय ३, १; अप ४८, ८८; शुश्र १, १९०; निघ २, ७; या ५, १; शुप्रा २, ३४; ४, ८५; तैप्रा ११, १०; -**न्धसः** आश्री ६, ४, १०^५; शाश्री ९, ४, ५; ७, १; १२, २६, १५; १८, ७, ११; ११, २; आपश्री १७, ७, ८; वाश्री ३, ३, ३, १; जैश्री ९ : २४^४; क्षुस् १, ३ : ५; १३; ५ : १९; ७ : २१; ८ : ६; १३; ९ : ५; १७; ११ : १६; २, १ : १४; २० : २ : ३; ७; ११; ३ : १४; ४-५ : १३; १५ : ८; १४; निस् १, ३ : १८; २१; आपमं १, १, १; वौगृ १, १, १४; या ११, ९०; १३, ६०; ऋप्रा २, ४७; शुप्रा ४, ७८; उनिस् ४ : २५; ५ : २८; -**न्धसा** निस् ६, ७ : ३८; -**न्धसे** शांगृ ६, ४, ४^१; -**न्धसि** आश्री ६, ५, २४; शाश्री ९, २०, ३२; या ९, ३६०.

अन्धीगु^० - गुः ऋय २, ९, १०१; साश्र १, ५४५.

आन्धीगव^० - वम् लाश्री ६, ११, ४; ७, ८, ५; लुस् १, ३ : ५; १३; ५ : २१; ७ : २२; ८ : ५; १५; ९ : ४; १६; १० : १२; २, १ : १४; २०; २ : ४; ८; १२; ४-५ : १५; १५ : १०; १५; ३, ६ : १३; निस् ५, २ : १; -**वात्** द्राश्री ८, १, ६; ३४; लाश्री ४, ५, ७; २७; लुस् ३, २ : ३२; निस् ७, ७ : २१; ८, २ : १३.

आन्धीगव-निघ^० - घः निस् ६, १० : २६.

अन्धु^० - पाउ १, २७.

अन्धु(न्धु-ऊ)घस्^१ - घसोः पावा ६, १, २८.

अन्धोहमनसुहिताभ्याम्^६ वाधूश्री ३, १०३ : १.

अन्ध^१ - पाउभो २, ३, ३०; -**न्धाः^१** शाश्री १५, २६, १; -**न्धान^१** अप ५०, १, ६.

आन्ध्र^१ - **न्धाः** अप १, ६, ९; ७, ७.

अन्-पूर्व^६ - **र्वः** ऋत ४, २, ७.

अन्ध-प्रभृ. √ अद् द्र.

अन्धवेजम्^१ आमिगृ २, ७, १ : ३.

अन्य, न्या^१ - पाग १, १, २७; ७, १, २५; पाउवृ ४, ११९; -**न्यः** आश्री २, १४, १२^१; शाश्री;

वाधूश्री ४, १३ : ८^१; -**न्यत्** आश्री; लाश्री ९, ११, १^०; वैध १, ११, १०^१; पावा २, ४, २६; पाग १, १, ३७; ७, १, २५; -**न्यत्-न्यत्** माश्री २, ५, ४, २४^१; -**न्यम्** आश्री २, १२, २^१; शाश्री; द्राश्री १०, २, ८^१; कौगृ ३, १५, ५^१; पाग ३, ७, ३^१; वैगृ ६, २ : ८^१; -**न्यया** शाश्री १६, २२, १९; -**न्ययाऽ-न्यया** माश्री २, १, १, ३८; -**न्ययोः** माश्री ४, ३, ४४; अप्राय २, ८; -**न्यस्मात्** आश्री ३, ११, १७; आपश्री; -**न्यस्मिन्** आश्री ३, १२, ११; ६, ६, १८; शाश्री; पा ४, १, १६५; -**न्यस्मै** काश्री ९, ४, ३१; आपश्री; -**न्यस्य** आश्री १, ३, ३०; २; गौघ १८, १०^१; -**न्यस्याः** काश्री २५, ६, २; कौस्; -**न्यस्याम्** आपश्री ९, १४, २^१; वौश्री; -**न्यस्यै** वाधूश्री ४, ३८ : ८; या १४, २^१; -**न्या** आपश्री ७, २८, ८^१; ९; -**न्याः** आश्री १, ५, ३०; १०, ३, १२; ११; हिश्री १७, ८, २^१; -**न्याऽ-न्याः** वौश्री २५, ५ : ३; वाधूश्री ४, ९० : १९; -**न्यात्** वैश्री १६,

a) ०सेति पाठे सन्धिः ? (तु. ऋ ९, ६१, १०) । b) व्यप. (ऋषि-विशेष-) । व्यु. ? । c) नाप. (साम-विशेष-) । तेन दृष्टमित्यर्थे अण् प्र. । d) वस. । e) नाप. (कूप-) । व्यु. ? । < √ अम् इति पाठ. अभा. च [पक्षे], अभा. √ अन्धि इति । f) दस. । g) स यद् अ० इति पाठः ? स यद् अनन्धोऽहं स्या (म् >) न न सुहितः स्या (त >) न् इति शोधः । h) नाप. (क्षत्रियजाति-विशेष-, देश-विशेष-) । व्यु. ? । i) बहु. < आन्ध्र- (पावा ४, २, ८१) । j) नाप. (तद्देशवासिन्-) । अण् प्र. (पा ४, २, ६७) । k) विप. । वस. । l) पाठः ? अन्-अवघ->-घम् (अपापम्) इति शोधः । तथा ब्रह्मचर्यज्ञतिथेदिति वा. क्रिवि. । m) वैप १, परि. च द्र. । n) ०न्यत् इति संस्कृतेः टि. । o) अन्यक्षे० इति समस्तः पाठः ? यनि. शोधः । p) W. संस्करणे अधिकः पाठः । q) सपा. तैत्रा ३, ७, १३, २ अन्योऽन्यः इति पाभे. । r) पाभे. वैप १ परि. अन्यम् तै ४, ६, १, ३ टि. द्र. । s) पाठः ? (तु. सपा. लाश्री ३, १०, ७ यम् इति पाभे.) । t) शोधार्थं पृ २१८ j द्र. । u) सपा. आपमं २, २०, १० हिय १, १४, ४ त्रिशिष्टः पाभे. । v) ०न्याम् इति पाठः ? यनि. शोधः । w) अन्यत्र इति काचित्कः पाठः ? । x) ०न्यस्मै इति लसं. । y) अन्या इति विसर्गरहितः पाठः ? यनि. शोधः (तु. आश्री १०, ३, १२) ।

२ : ६; मैत्र २०; -न्यान् आश्रौ ४,३,२,९; -न्यानि आश्रौ ३,१, १९; ४; -न्याभिः आश्रौ ८, ६, १०; आपश्रौ; -न्याभ्यः शाश्रौ ३,२०, २०; बौध १,२, ५७^क; -न्याभ्याम् हिश्रौ ८, ३, १६^३; ऋश्र ११, ३ (२); -न्याम् आश्रौ १, ५, ३९, शाश्रौ; आपमं १, १०, २^३; -न्यासाम् शाश्रौ ९, २०, १४; आपश्रौ; -न्यासु आश्रौ ८, ६, २४; शाश्रौ; कौश्र १, १२, ६^३; शाश्र १, १९, ६^३; -न्ये आश्रौ १, ३, १५, ५; आपध १, १७, ३९; हिध १, १, १२६; ५, ७०^३; -न्येन आश्रौ ३, ११, ५; शाश्रौ; पात्रा ३, १, ११२; ६, १, १२७; ८, २, ८६; ४, २; -न्येभ्यः काश्रौ १३, ३, १४; आपमं; पा ३, २, ७५; १७८; ३, १३०; पावा ३, २, १४६; ५, १, ५८; २, ११२; १२०; -न्येषाम् आश्रौ १, ३, १४; ३; पा ६, ३, १३७; पावा ३, १, १३३; ६, १, ७; -न्येषु आश्रौ ६, ५, १०; शाश्रौ; पा ३, २, १०१; ऋश्रैः आश्रौ ३, १०, २०; ८; -न्यौ काठश्रौ १२२; बौश्रौ.

अन्य^० पा २, ३, २९.

ऋश्रन्यक^१ - के या ५, २३; १०, ५.

अन्य-करण^० - णैः मैत्र ७.

अन्य-कर्मन्^० - र्म, -र्मणः पावा १, ४, ५१.

अन्य-काल^१ - त्व- -त्वम् मीस् ११,

३, १; ५; -त्वात् मीस् ११, ३, २०; ४, २.

अन्य-कुलो(ल-उ)पयुक्त^६ - क्तः अप ३, १, ९; १०.

अन्य-कृत^१ - ऋतम् द्राश्रौ ६, ४, ११; लाश्रौ २, १२, १२; -तस्य आपश्रौ १३, १७, ९^क; माश्रौ २, ५, ४, ८; आम्रिष्ट ३, १२, २ : ७; -ऋतेभ्यः बौश्रौ ६, ३० : १६; ऋप्रा २, ४७.

अन्य-ग(त>)ता^१ - तासु शंघ ३६८.

अन्य-गोत्र-व्यवाय^१ - यात् हिश्रौ १६, १, ३६^क.

अन्य-चिति^० - तित्म् काश्रौ १६, ५, ९
अन्य-च्छन्दस्^० - न्दः लाश्रौ ७, ९, १३.

अन्य-जन^१ - नाः वाधूश्रौ ४, ८ : ३; -नेभ्यः वाधूश्रौ ४, ८ : ६.

अन्यजन्य- -न्यम् शाश्रौ ५, १३, ३^क.

अन्य-जात^१ - तम् गौध २८, २४; या ३, २^क.

अन्य-जाति-कर्म-शी(ल>)ला^१ - ला सुधप ८८ : ६.

अन्य-तम, मा- -मः शाश्रौ ५, १, १०; काश्रौ; -मत्^३ कौश्र २, ८, ३; शाश्र १, ३, १०; २, १३, ३; बौधः -मम् बौश्रौ २८, ६ : १७; वैश्रौ; -मस्मात् शाश्र १, १, ८; -मस्मिन् काश्रौ ५, १०, १८; शंघ १३३; आशि ८, १; -मस्य बौश्र २, ५, ३५;

६६; ३, २, ११; २४; ३६; ४९; ३, १३; भाय; -मा आम्रिष्ट ३, १०, ३:१; कप १, ८, ८; -माः काश्रौ १८, ६, ६२; -मात् शंघ १०७; -माम् काश्रौ ४, २, ४; -मे बौश्र २, ११, ६८; वैश्र ४, ७ : १; -मेन बौश्र २, ६, २२; बौध; -मेषु गौपि २, ३, १९.

अन्यतम-चूर्ण^१ - णेन अप १२, १, ३.

अन्यतम-मा(त्र>)त्री^० - त्रीम् वौश्रौ १९, १ : १५.

१अन्य-तर, रा^१ - पाग १, १, २७; ७, १, २५; -रः शाश्रौ १४, ३०, १^३; काश्रौ; या ३, ६^३; पात्रा ५, २, ४७; -रत्^३ काश्रौ ७, ९, ८; ९, ६, ३२; १०, ९, १; आपश्रौ; पाग ७, १, २५; -रम् काश्रौ ७, ४, २१; आपश्रौ १, २, २; वौश्रौ; -रया वाधूश्रौ ४, ११५; ११; वैश्रौ; -रस्मात् हिश्रौ ६५, १, २५; -रस्मिन् काश्रौ ९, १३, २०; १०, ४, ११; द्राश्रौ; -रस्य काश्रौ ४, २, ११; २४, ६, ३०; हिश्रौ; -रस्याम् आश्रौ ९, ६, ४; शाश्रौ; -रा आश्रौ ३, १, ६; -राम् आश्रौ २, ७, १७; ४, ७, ४; ७, १०, ५; काश्रौ; -रेण काश्रौ ५, ५, १७; १०, ५, १३; २२, ६, १७; आपश्रौ; -रौ हिश्रौ ८, ८, १.

अन्यतर-तस् (ः) आश्रौ ३, १, २; ५, १९, ३; काश्रौ ३, ४, १; १०, ६, ९; १५, ८, २३; आपश्रौ.

- a) पाभे. वैप १, १३६६ m द्र. । b) अन्यान् स्वा^० इति पाठः? यनि. शोधः (तु. वैप १ परि. अन्यत्र शौ ६, ११, ३ ति.) । c) ञ्यै इति पाठः? यनि. शोधः (तु. आपध.) । d) वैप १ द्र. । e) कस. । f) बस. । g) विप. । कस. > तृस. । h) वैप १, परि. च द्र. । i) विप. (भार्या-) । द्वितीयासमासः । j) कस. > षस. । k) सप्र. आपश्रौ २१, ३, २ नानागोत्रव्यवायात् इति पाभे. । l) विप. । कस. > षस. > बस. । m) अद्-आदेशः । n) षस. । o) विप. (रज्जु-) ।

अन्यतरतः-क्षुण्(त>) ता^a-
-ताम्^{b,c} हिथ्रौ ११, १, ११; १७,
१, १३.

अन्यतरत-क्षुण्^d- -क्षुण्म्
आपथ्रौ १६, १, ७^b.

अन्यतरतः-पाश,शा^e- -शया
भाथ्रौ १०, ६, १०; -शा आपथ्रौ
१०, ९, १३; -शेन आपथ्रौ २, ५,
४; भाथ्रौ २, ५, ४; वैथ्रौ ५, ३: ३;
हिथ्रौ १, ७, १५.

अन्यतरतो(तः-अ) ति-रात्र^f-
-त्रा: वौथ्रौ २६, १२: ४; निस्
९, ९: १६.

अन्यतरतोतिरात्र-त्व-
-त्वात् मीस् ८, २, २९.

अन्यतरतो-नमस्कार^g- -रा:
शुअ २, २६३.

अन्यतरतो-मोद^h- -दम्
आपथ्रौ १३, १३, ९; वैथ्रौ १६,
१६: २; हिथ्रौ ९, ३, ६०.

अन्यतर-वासस्ⁱ- -सा: वैग् २,
८: ११.

अन्यतरा(र-अ)दोष^j- -षे आथ्रौ
३, १०, २५.

अन्यतरा(र-अ)नुपेत^k- -तौ वैग्
३, ५: ७.

अन्यतरा(र-अ)भाव^l- -वे
आपथ २, ११, १३; हिथ २,
४, २८.

अन्यतरा(र-अ)र्थ^m- -र्थम् पावा
१, १, ३.

अन्यतरे-द्युस्(:) पा ५, ३, २२.
अन्य-तस्(:) काथ्रौ १७, ११, ८;
२२, ५, २६; आपथ्रौ.

अन्यत-ग्(त>) नीⁿ- नी
वौथ्रौ १६, २४: १३; २६, १८:
७; हिथ्रौ १७, ६, २४.

अन्यतो(तः-अ)तिरात्र^f- -त्रा:
निस् ९, १०: ४३.

अन्यतो-दन्त^o- -न्ता: वाध १४,
४०.

अन्यतो-मद^p- -दम् वौथ्रौ ८,
१३: १८; २१, २३: ३.

अन्य-(द्>)त्-कारक- पा ६, ३,
९९.

अन्य-(द्>)त्-कीट^q- -टानाम्
वौथ्रौ २८, १०: ४.

अन्य-(द्>)त्-पा(र्धे>)र्धी^r-
-र्धीम् कौस् ३९, १६ⁿ.

अन्य-(द्>)त्-पुरुष-दर्शन¹⁰-
-नम् आज्यो १२, ५.

अन्य-त्र, >त्रा आथ्रौ १, २, २४.

अन्यत्र-करण^p- -णस्य कौग् ३,
१५, ५; शांग् ३, १३, ५.

अन्यत्र-गत-मानस^r- -सम्
विध २०, ४२.

अन्यत्र-स्थान^s- -ना: लाथ्रौ १०,
६, ४; निस् ५, ३: ९; ४: १२.

अन्य-त्व- -त्वम् आथ्रौ १२, ४, १७;
कौशि ६०; मीस् ६, ८, ३८; ७,
४, ३; -त्वे पावा ८, १, ५१.

अन्यस्व-कर- -र: पावा १, १,
२६.

अन्य-था आथ्रौ १२, ९, १७; शाथ्रौ;
ऋत ३, २, २^a.

अन्यथा-करण- -णे अप ७०,
११, ४.

अन्यथा-कारम् पा ३, ४, २७.

अन्यथा-नोत्र^f- -त्रा: वौथ्रौ
२३, ९: १९.

अन्यथा-त्व- -त्वम् अप ७०^३,
४, ५.

अन्यथा-भाव- -व: अप ६४,
१, २.

अन्यथा-वादिन्- -दिन: विध
८, ३८; -दी विध ५, २६.

अन्य-दक्षिणा^f- -णाभि: वौथ्रौ २,
३: १३.

अन्य-द-अर्थ^f- पा ६, ३, १००.

अन्य-दर्शन^h- -नम् मीस् ११, २,
१५; ४, २२^६; २५; -नात् मीस्
१, ३, ३२; ३, ५, ३६; ७, ४९.

अन्य-दा पा ५, ३, १५.

अन्य-द्-आशा^f-, °आशिस^f-, °आ-
स्था^f-, °आस्थित^f-, °ईय-
°उत्सुक^f-, °ऊति^f- पा ६, ३,
९९.

अन्य-देवत^f- -तम् वैथ्रौ १५,
३५: ५; -तान् आपथ्रौ १२,
२४, ९; -तानि आपथ्रौ ४, ९,
१४; १३, २, ५.

अन्य-देवता^f- -ता: ऋअ १, २,
१२.

a) उस. उप. कर्मणि क्तः प्र.। शेषं ८ टि. द्र.। b) पाभे. वैप १ परि. अन्यतःक्षुण्त् मै ३, १, २^३ टि. द्र.।

c) °क्षुण्ताम् इति पाठः? यनि. शोधः (तु. पाभे.)। d) विप. (अध्रि)। उस. उप. द्वाः प्र. उसं. (पाउ २, ६८ [तु.
टि. वैप १ अग्ने-गु-])। e) विप. (मेखला-योक्त्र-)। बस.। f) विप.। बस.। g) नाप. (प्रतिगर-विशेष-)
बस.। h) तस.। i) विप. (दम्पति-)। तृस.। j) षस.। k) वैप १ द्र.। l) कस.। पूष. दुग् आगमः
उसं. (पा ६, ३, ९९)। m) विप. (कृत्या-)। बस.। n) °पाष्णीम् इति संस्कर्तुः टि.। o) कस. > षस.।

p) अर्थः?। =अन्यजात-पुरुष- इति नारायणः [पृ १४७] Clid. च। q) तु. वैप १, ६३७ b टि.। r) कस.।

s) अन्यार्थम् इति प्रयासं?।

अन्यदेवता-दिश^a - दिशि अप
४०, २, १.
अन्यदेवत्व्य, स्या^b - स्यः मीस्
१०, १, ३३; -स्याः या ५, ७;
वृदे २, १२६.
१ अन्य-देश^c - शम् वृदे ५, १६.
२ अन्य-देश^d - > °त्व - त्वम् मीस्
१०, ७, ४२; -त्वात् मीस् १२,
१, १५.
अन्य-देश-जाति-कुल-धर्म^e -
-मर्णाम् शंघ ७.
अन्य-दैवत^f - तस्य बौश्रौ २९, २:
१७; -ते वृदे १, १८; या १, २०.
अन्य-द-राग^g - पा ६, ३, ९९.
अन्य-द्रुमो (म-उ) ङव^h - चान्
काठश्री ६.
अन्य-घृतⁱ - तम् गौध ९, ४;
-तानि विध ७१, ४७.
अन्य-निर्देश^j - शः पावा १, ३, ११.
अन्य निवृत्त्य (ति-अ) र्थ^k - र्थम्
प्रावा १, १, ५१^३; ४, १, ११४^२;
२, १०४; ५, २, ९५.
अन्य-पक्ष^l - क्षे काश्रीसं ५ : ३.
अन्य-पदा (द-अ) र्थ^m - र्थे पा २, १,
२१; २, २४; पावा २, १, १७;
२०; ७, १, २३; पाग २, १, ७२.
अन्यपदार्थ-त्व - स्वान् पावा १,
२, ६४; ६, १, १.
अन्य-पर-प्रतिषेधा (ध-अ) र्थⁿ -
-र्थः पावा ८, १, ५६.
अन्य-पात्र^o - त्रस्य मीस् ८, ४, ७.
अन्य-पुंस^p - पुंसा कप्र १, ८, ७.
अन्य-पूर्व, वा^q - वार्याम् आपध २,

२७, ११; वैध ३, ११, ४; हिध
२, ५, २३०; -वासु शंघ ३६७;
-वैः ऋप्रा ५, २१.
अन्य-प्रमाण^r - त्व- त्वात् पा १, २,
५६.
अन्य-प्रयोजन^s - नः आपध २,
६, ५^१.
अन्य-प्रसव^t - वाः अप ७०^३, ४, ४.
अन्य-प्रेतक^u - के वैगु ७, ५ : ७.
१ अन्य-वन्दु^v - न्दुः आपधौ १४,
३०, ४; हिश्री १५, ७, १९.
अन्य-भाव^w - पाग ५, १, १२४.
आन्यभाव्य - पा ५, १, १२४;
-व्यम् पापवा १, ११; पावा ५,
२, ५९; -व्यस्य पावा १, १, ६२.
अन्य-मति^x - तितः याशि १, २०;
४३.
अन्य-मन्थ-कृत्^y - कृत् कप्र १, ७,
१३.
अन्य-यज्ञ - ज्ञे आपधौ १४, ३१,
९^a; गौध २२, ९^c.
अन्य-युज्^m - युक् याशि २, ५६.
अन्य-योगⁿ - गो अप्रा १, १, २५.
अन्य-राजा (ज-आ) गमन^o - नम्
अप ७२, ४, ५.
अन्य-राजा (ज-आ) गम - भय^p -
-यम् अप ७१, १४, १.
अन्य-रूप^q - पः या ५, ८^१.
अन्य-व (त्स >) त्सा^d - स्सायाः
अप्राय २, ८.
१ अन्य-वर्ण^r - र्णः अप ५४, १, ४;
-र्णम् विध ९०, १६.
२ अन्य-वर्ण^s - अन्यवर्ण-स्त्री^a -

-स्त्रीष शंघ २७५.
अन्यवर्णो (र्ण-उ) पवेशि (त >)
ता^r - तायाम् शंघ १५७.
३ अन्य-वर्ण^s - र्णः भाशि ५.
अन्यवर्णा (र्ण-अ) न्त^d - न्तात्
अप्रा २, ३, ८.
४ अन्य-व (र्ण >) र्णा^r - र्णाम् ऋप्रा
१४, ५४.
अन्य-वस्तु^e - र्स्तूनि अप २१, १, ४.
अन्य-वाचक^f - केन पावा २, २,
२९.
अन्य-विधान^g - नात् मीस् १२, १,
३०; -नेन मीस् ११, १, ४७^c.
अन्य-विषय^h - ये पावा ६, ४, १४८.
अन्य-वृक्षⁱ - क्षस्य आपधौ ७, ३, ५;
हिश्री ४, १, ३७; -क्षेण अप २२,
१, ५.
अन्यवृक्ष-ज, जा^j - जम् अप ६९,
३, ४; -जा कागुउ ४० : २०;
-जौ कागुउ ४१ : १.
अन्य-वृत्^k - ताः, -तैः बौश्रौ २९,
५ : ९; वैश्री २१, १६ : ८.
अन्य-वेद^l - दाः निस् ८, २ : १२.
अन्य-व्यवाय^m - ये पावा ८, ४, २.
अन्य-शतⁿ - त्व- त्वे पावा ५, १, २१
अन्य-शाखा^o - खासु अप ६७, ८, १.
अन्यशाख्य - ख्यम् अप ६९,
९, ३.
अन्य-शास्त्र^p - स्त्रम् मीस् १, ४, ४.
अन्यशास्त्र-निवृत्त्य (ति-अ) र्थ^q -
-र्थः पावा ६, १, १००.
अन्य-संयुक्त^r - क्तात् मीस् १०,
१, ५.

a) षस. । b) वैप १, परि. च द्र. । c) कस. । d) विप. । बस. । e) षस. पूष. कस. > द्रस. ।
f) विप. । कस. > बस. । g) विप. त्स. । h) कस. > षस. । i) बस. पूष. कस. > षस. । j) शोषार्थं
अक्षप्रयोजन-टि. द्र. । k) विप. । उस. पूष. कस. । l) त्स. । m) उस. । n) षस. । पूष. कस. ।
o) पंस. । पूष. कस. > षस. । p) कस. । उप. = ब्राह्मणादि- । q) कस. । उप. = अक्षर- । r) विप.
(उपधा-) । बस. उप. = अक्षर- । s) विप. (पुण्य-, अग्निहोत्रहवनी) । उस. । t) विप. । बस. पूष. षस. ।

अन्य-संयोग^a - गत् मीस् १०,
४, १०.
अन्य-संहित^b - तस्य निस् २, १ :
१३; ३६^२.
अन्य-संख्या^c - त्व- - त्वम् पावा ५,
२, ४८.
अन्य-सत्त्व-प्रसूति^d - तयः अप
६४, ३, २.
अन्य-संबन्ध^e - न्यः मीस् ४, ४,
३४.
अन्य-साधक^f - कः ऋप्रा ११, ६६.
अन्य-साधारण^g - णम् बौश्रौ १७,
२७ : ८.
अन्य-सामान्य^h - न्ये पावा ८, १,
५१.
अन्य-सूतकⁱ - के वैगृ ७, ५ : ६.
अन्य-स्त्री-र्ग^j - गः विध ५, १९६.
अन्य-स्थान^k - नम् निस् ९, ८ :
१५.
अन्य-स्थान-गत^l - तस्य द्राश्रौ
६, २, २२; लाश्रौ २, १०, २१.
अन्य-स्वर^m - राणि अप्रा १, १,
२८; २, ५; ९; ३, २.
अन्य-हविष्ⁿ - त्व- - त्वात् मीस्
१०, १, ४०.
अन्य-हुत^o - ताः बौश्रौ २९, ५ :
७; -तैः बौश्रौ २९, ५ : ८.
अन्य-होम^p - मः कप्र २, ९, १७;
१९.
अन्या(न्य-आ)कृति^q - तिषु अप ७०,
७, १.
अन्या(न्य-अ)मि^r - मिना वैगृ ६,

१५ : ११; -मिषु माश्रौ ३, ४, ३.
अन्या(न्य-आ)दि^s - दि ऋप्रा २,
३६.
अन्य(न्य>)न्या-दृश^t - पावा ३,
२, ६०; -दृह् आपश्रौ १७,
१६, १५; १८, १२, १२; बौश्रौ
१०, ५३ : १; ८; हिश्रौ १२, ५,
२८; शुप्रा ५, ३७.
अन्या-दृश-, अन्या-दृक्ष- पावा ३,
२, ६०.
अन्या(न्य-अ)द्भुत^u - तानि अप
६९, ६, १.
अन्या(न्य-अ)धीन^v - नम् वैध ३,
५, २.
अन्या(न्य-आ)नर्धक्य^w - क्वात् मीस्
१, २, ४.
अन्या(न्य-अ)भाव^x - वः पावा १,
१, २७; ३, १२.
अन्या(न्य-अ)भिधान^y - ने पावा
८, १, ५१.
अन्या(न्य-अ)रणि^z - ण्योः कप्र ३,
१, १८.
अन्या(न्य-अ)र्थ^{aa} - र्थे पावा ६,
३, २; ५; ९.
अन्या(न्य-अ)र्थ^{ab} - > दृशन-
-नम् मीस् ४, ४, ३१; ३३; ३८;
४१^m; ५, १, ७; २, २०; ६, १, १२;
३८; ५, १५; ७, १०; ३२; ८, १,
३१; ३, ५; ९, २, १८; १०, २,
३३ⁿ; ८, ४५; ५७; ११, १, ४४;
५७; ६९; २, ५; १०; ४, ३; १२,
२, २४; -नात् मीस् ३, ५, २०;

६, १, २८.
अन्यार्थ-विधान^{ac} - नात् मीस्
८, ४, ६.
अन्या(न्य-अ)र्थ, र्था^{ad} - र्थम् काश्रौ
१, ४, ६; ७; -र्था मीस् २, ३,
२९; -र्थाः कौस् १, ५; -र्थेन
लाश्रौ ९, ६, २२; मीस् ६, २, ९;
-र्थौ पावा १, ४, १.
अन्यार्थ-त्व- - त्वात् काश्रौ १,
८, १५; ९, १२, १; १२, ३, १६;
मीस् १०, ४, १३; १२, १, ३१;
४६.
अन्या(न्य-आ)शा^{ae} - शायाम् कौस्
३९, २५; ४६, १०.
अन्या(न्य-अ)शौच-युक्त^{af} - क्ते वैगृ
७, ३ : १.
अन्येद्युस्^{ag} (ः) अप्र ७, ११६; अपं
३ : १४; अप्रा ३, ४, १; पा,
पावा ५, ३, २२.
अन्यो(न्य-उ)स्त्व^{ah} - छम् वैध ३,
५, २.
अन्यो(न्य-उ)द्व^{ai} - > द्यर्थ^{aj} - र्थः
या ३, ३१.
अन्यो(न्य-अ)न्य^{ak} - न्यः हिश्रौ ९,
५, ३६^{ka}; लाश्रौ; वैताश्रौ २४,
११^{kb}; -न्यम्^{kc} शाश्रौ १६, २१,
२१; काश्रौ; -न्यस्मिन् शाश्रौ
७, ४, १३; १४, ४२, १८;
१९; २०; काश्रौसं ३० : ९;
वैश्रौ १५, ३१ : १०; हिश्रौ ५,
१, ४०; ८, ७, ४७; ५०; -न्यस्मै
बौश्रौ १६, ६; ५; माश्रौ; -न्यस्य

a) तुस. । b) विप. । बस. वा. तुस. वा । c) कस. । d) कस. > पंस. । e) षस. ।
f) विप. । उस. पूप. कस. । g) विप. । सस. । h) विप. । बस. । i) वैप १, परि. च द्र. । j) सस. > सः
प्र. (पा ५, ४, ७) । k) आनर्थ^क इति कासं. शोघार्हम् (तु. प्रयासं., एतदनु पृ १४४ शोघोऽपेक्ष्यः) । l) बस. ।
m) न्वात् इति काचित्कः पाठः । n) प्रयासं. पाठः । o) कस. उप. = दिशु- । p) विप. (शब) ।
तुस. पूप. क्त. । q) विप. । तुस. । r) वैर १, २५० h, i टि. । s) पाप्मे. वैप २, ३३. तैत्रा ३, ७,
१३, २ टि. द्र. । t) वा. क्वि. ।

काश्री ५, ५, ३१; आपश्रीः -न्येन वाध २३, २८; गौध. अन्योन्य-गुण-संश्रय ^२ - -यात् अप ६३, १, ४. अन्योन्य-प्रतिसङ्गम ^३ - -मम् अप ६४, ३, ३. अन्योन्य-भक्षण ^४ - -णानि अप ६४, ५, ४. ?अन्योन्यभक्षण ^५ दंवि २, ११. अन्योन्य-योनि-ता- -ताम् वृदे १, ७१. अन्योन्या(न्य-अ)न्न-भोजन ^६ - -नम् आश्रि ३, १०, ३ : ४. अन्योन्या(न्य-अ)पतित-त्या- गिन् ^७ - -गी विध ५, ११३. अन्यो(न्य-उ)पयुक्त ^८ - -क्तानि वैध ३, २, ५. अन्यो(न्य-उ)पसर्ग-प्रतिषेधा- (ध ^९ -अ)र्थ- -र्थम् पावा ७, १, ६८. अ-न्यच्चत् ^{१०} - -चन् आपश्री १०, २४, ८. १अन्य-तर- अन्य- द्र. २अन्यतर ^{११} - (>आन्यतरेय- पा.) पाग ४, १, १२३. ?अन्यधीयते ^{१२} आश्री ८, १३, ३१. अ-न्यस्त ^{१३} - -स्तम् जैश्री १ : ३. ?अन्यात्वद्यपती ^{१४} जैश्रीका ९०. ?अन्याधित्सन् ^{१५} निस् ७, १ : १४.	अ-न्याय ^{१६} - -यः लाश्री १०, ११, ८; मीस् १, ३, २६; १०, ३, २६; -येन लाश्री १०, ७, १४. अन्याय-वृत्त ^{१७} - -त्तः गौध २८, ४१. अन्याया(य-आ)ग(त>)ता ^{१८} - -ताम् अअ ७, ११५. अ-न्यायपूर्व ^{१९} - -त्व- -त्वात् मीस् ७, ४, ५. अ-न्यायसमास ^{२०} - -सात् शुप्रा ५, ३९. अ-न्याय्य, य्या ^{२१} - -य्यः मीस् ९, ३, ११; -य्यम् मीस् ६, ३, ३२; -य्यस्य मीस् ९, ३, १४; १६; -य्या मीस् १, २, २८; ३, ९, ४३. अन्याय्य-कल्पना ^{२२} - -ना मीस् ९, ३, १७. अन्याय्य-त्व- -त्वात् मीस् १०, २, ११; ८, ४; १६. अन्याय्य-निगद् ^{२३} - -त्व- -त्वात् मीस् ९, ३, ३५. अन्याय्य-संबन्ध ^{२४} - -न्धात् मीस् ९, ३, १३. ?अन्यासांतश्रोण्यासाम् वाश्री ३, २, ७, ५१. ?अन्युब्जेतनप्रमाण आश्रि ३, ११, २ : १६. अ-न्यूङ्क्ष ^{२५} - -ङ्क्षम् शाश्री ११, १५, ११; १३; १२, ६, १३. अ-न्यून, ना ^{२६} - -नम् बीश्री ४, ४ : ३५;	६, २७ : १०; -नाः आपश्री २२, १७, ५; हिश्री १७, ६, ४२? ^{२७} . अन्यूना(न-अ)ङ्क्ष ^{२८} - -ङ्क्षः द्राश्री १, १, ७; लाश्री १, १, ७. अन्यूना(न-अ)नतिरिक्ता(ङ्क्ष-अ) ङ्क्ष ^{२९} - -ङ्क्षान् आश्रि १, २३, १. अन्व(नु-अं)स् ^{३०} - -सम् शाश्री ४, १६, ६. अन्वक्त- अन्व(नु√अ)ञ्ज् द्र. अन्व(नु-अ)क्ष ^{३१} - पावा ५, ४, १०७; -क्षम् आश्री ९, ७, २६; शाश्री ३, १८, १७; कौश्रि २, ३, १; शांश्रि २, ५, ३; वाश्रि २, ३; गौध १४, ९. अन्व(नु-अ)क्षर-संधि ^{३२} - -धयः ऋप्रा २, ८; -धिः ऋप्रा ४, ८३. अन्वक्षरसंधि-वक्त्र ^{३३} - -क्त्रः ऋप्रा ४, ३७. १अन्व(नु-अ)अ ^{३४} - -अम् आपश्री २, १३, १; ७, २, ९; बीश्री ४, १ : २६; माश्री ७, २, ४. २अन्व(नु-अप्र>)प्रा ^{३५} - -प्राः वैश्री १४, ११ : ५ ^{३६} . अन्व(नु√अ)च्, ञ्च् > अन्व(नु-अ) च्, ञ्च्- -नूचः बीश्री ३, ५ : १२; २०, २० : ६; भाश्री ६, ११, ४; हिश्री ३, ७, १८; १६, ८, १५ ^{३७} . -नूचौ
--	---	---

a) षस. > षस. । b) षस. । c) पाठः ? नाऽन्य-भाषणे इति शोधः । d) कस. > उस. ।

e) विप. । तृस. । f) कस. > षस. । g) विप. । तस. उप. < न्य(नि√अ)च् । h) व्यप. (ऋषि-विशेष-) ।
व्यु. ? । i) यद्यन्^{३८} इति पाठः ? यद्यद् नाऽधीयते इति शोधः (तु. सस्थ. टि. ?पूर्वधीयते) ।

j) विप. (आत्विज्य-) । तस. । k) पाठः ? अन्या (अपरा) तु अथ आवृत्तिः इति चतुष्पदः शोधः ।

l) पाठः ? । अन्याः, धित्सन् > त्सन् इति स्यात् ? । m) तस. । n) विप. । बस. । o) विप. ।

पंस. । p) न्यूनाः इति पाठः ? यनि. शोधः (तु. माश्रि ४, ५, ८, १६ आपश्री. च) । q) विप. । बस. पूष.

द्रस. । r) नाप. । प्रास. । s) अस. समासान्तः प्र. । t) नाप. (संधि-विशेष-) । अस. > कस. ।

थ) नाप. (अन्वक्षरवक्त्र- इत्याख्य- संधि-विशेष-) । v) अस. वा. किवि. । w) विप. । प्रास. वा बस. वा ।

ख) सप्र. आपश्री ११, १०, ५ वर्षिष्ठा इति पाठे. । y) वैप १, परि. च द्र. ।

द्राश्रौ १०, ४, ७^३; लाश्रौ ३,
१२, ६^३; -न्वक्^३ आश्रौ ५,
२, ४; काश्रौ; पाग १, १, ३७;
-न्वह् आपश्रौ ९, ७, १^३; १०^३;
१४, ९, २; भाश्रौ; -न्वञ्चः आश्रौ
५, ३, २३; शाश्रौ; -न्वञ्चम्
आपश्रौ १०, ७, ८; २०, १३, १२;
बौश्रौ; -न्वञ्चि शाश्रौ ९, २६, १;
२८, १; बौश्रौ ६, २६ : ९; ७,
२ : १०; -न्वञ्चौ बौश्रौ ४, ५ : ८.

अनूची^० -ची बौश्रौ ४, ४ :
२०; १० : २७; ५, ९ : १७;
६, १२ : ११; २४ : २५;
११, ११ : ७; १८, २२ : १;
आमिष्ट १, ५, १ : ३९^१; ^१भाग्
१, ५ : ३; १३ : १६; बौशु
२० : १०; अश्र १०, १३^१;
या २, २०^१कृः -चीः आपश्रौ
२, ९, १५; बौश्रौ ११, ५ : ३; १५,
३१ : १; माश्रौ १, २, ६, १६;
वाश्रौ १, ३, ३, २१; -च्यौ या
२, २०.

अनूचीन^० -नम् आपश्रौ २,
१८, ९; बौश्रौ १८, २१ : १५;
वैश्रौ ६, ८ : ६; बौशु १९ : ५;
-नानि बौश्रौ ५, १२ : १९;
वैश्रौ ९, ६ : ८; हिष्ट १, १२,
१४; बौशु ३ : ४; १० : १६;
-नेपु हिपि ८ : ८.

अनूचीन-गर्भ^० -भौं शाश्रौ
१४, ३९, ७.

अनूचीन-सञ्च^० -द्धम्
वाधूश्रौ ३, ७५ : ७.

अनू(च्य>)च्या^० -च्या वैश्रौ
१२, २१ : २; १८, ६ : ६.

अन्वक्-स्थान-^१>^०निन्^१-
-निनम् आपथ १, ६, २९; हिध
१, २, ५२.

अन्वक्स्थानीय- -ये आपथ
१, ६, ३५; हिध १, २, ५७.

अन्वग्-ज्येष्ठ^१ -ष्टः आपश्रौ ९,
२०, ७.

अन्वग्-भावम् पा ३, ४, ६४.

अन्वग्-भूत^१ -> ^०त-वृत्ति^१-
-त्तिम् लाश्रौ ८, ७, १०.

अन्वग्-भूत्वा, अन्वग्-भूय पा
३, ४, ६४.

अन्व(तु√अ)जू > अन्वा(तु-आ)ज-
> अन्वाजे^१ > अन्वाजे √कृ
पा १, ४, ७३.

अन्वजत्^१ - (> आन्वजतायन-पा.)
पाग ४, १, ९९.

अन्व(तु√अ)ऊच् > अन्व(तु-अ)क्त,
क्ता- -क्ताः कौस् १८, २१;
२१, १३; -क्तान् वैताश्रौ ६,
१०; -क्तानि कौस् २६, २९; ३०.

अन्व(तु-अ)ति√पिच्, ऊच्, अन्वति-
पिञ्चेत् बौश्रौ १४, २३ : २८;
माश्रौ ३, ४, ९.

अन्वति-पिच्य आपश्रौ ९, १०, १५;
भाश्रौ ९, १४, ७; वैश्रौ २०, ११ :
११; १९ : ६; हिश्रौ १५, ३, २५.

^१अन्वत्या(तु-अति-आ)√वृत्,
अन्वत्यावर्तयेत्^१ आपश्रौ ९, १०,
१५; भाश्रौ ९, १४, ७; बौश्रौ
१४, २३ : २७; वैश्रौ २०, १९ :
६; हिश्रौ १५, ३, २५.

अन्वध्य(तु-अधि√अ)स् (क्षेपणे),
अन्वध्यस्यति माश्रौ १, १, २,
१८; ५, ६, २३.

अन्व(तु-अ)ध्याय^१ -यस् लाश्रौ ६,
९, ५; या १, ४; ५.

अन्व(तु-अ)ञ्ज^१ -ञ्जम् या ४, ८.

अन्व(तु-अ)प√हन्, अन्वपाप्तन्
वाधूश्रौ ४, ४८ : ६.

अन्वपा(तु-अप√अ)न्, अन्वपा-
निति बौश्रौ ७, ६ : २९.

अन्वपे(तु-अप√इ)>अन्वपा(प-आ)-
यम् निस् ८, ४ : १७; १० :
२८; ९, १ : २६; ११ : १७;
१०, ६ : १९.

अन्व(तु-अ)भि√रक्ष् > अन्वभि-
रक्षत् -क्षताम् माश्रौ ३, ५, ७^१.

अन्वय-, अन्वयन- अन्वि द्र.

अन्व(तु-अ)र्थ^१ -र्थम् द्राश्रौ १०, ३,
६; लाश्रौ ३, ११, ३; १२, ६;
पावा १, ४, २३.

अन्व(तु-अ)व√कृ > अन्वव-किरण-
-णाय बौगृ २, ११, ६२.

अन्व(तु-अ)व√गम्, अन्ववाजिगां-
सन् बौश्रौ १४, ८ : ९^१.

अन्व(तु-अ)व√दिश्, अन्ववदिशति
भाश्रौ ३, ६, १०; हिश्रौ २, ४, २८.

a) पाभे. वैप १ परि. अनूच्ये शौ १५, ३, ५ टि. द्र. । b) कचित् वा. किवि. । c) वैप १, परि.
च द्र. । d) विप. (अम-)। बस. । e) विप. । कस. । ^०नु इति पाठः? यनि. शोभः । f) कस. । g) विप.
(आचार्येतर-)। h) नाप. (महिष्या द्वितीय-पुत्र-)। मलो. कस. । i) सस. । j) उपसृष्टस्य धा. उपकरणे,
सामर्थ्याधाने वृत्तिः । यनि. विभक्तिप्रतिरूपकम् अव्य. । k) व्यप. (ऋषि-विशेष-)। l) तु. सपा. तैत्रा १,
४, ३, ६ (वैतु. भा. अनुः क्रम. इति मत्वा अत्यावर्तयेत् इति पृथक् पदमिति, रुद्रदत्तः [आपश्रौ.] र. [भाश्रौ.]
अन्वस्य, आवर्तयेत् इति च व्याचक्षाणाः सर्वथा चिन्त्याः) । m) अस्. वा. किवि. । n) प्रास. (तु. सा.
[ऋ ३, ५७, १]), यद्वा अस्. ।

अन्व(नु-अ)व/धा, अन्ववदधाति
आपथौ १, १३, १५; ८, ७, ३;
११, १६; भाथौ ८, १३, ४;
हिथौ ४, ४, ६१; अन्ववदध्यात्
बौथौ २२, ३ : ८.

अन्वव-धान- -ने बौथौ २२, ३ : ८.

अन्वव-धाय आपथौ १, १३, १५; ७,
२४, १२; १५, ४, २; १६, ५, ९;
बौथौ.

अन्व(नु-अ)व/मृश > ँव-मृश्य
आमिष्ट १, १, ३:२२; हिष्ट १, ५,
११; २१, ३; गोष्ट २, ६, ३; १०,
२४; जैष्ट १, १२ : ३१; द्राष्ट
२, २, १९; ४, १५.

अन्वव-यत्- अन्ववे (व/इ) द्र.

अन्व(नु-अ)व/रुह > अन्ववरुह्य
निस् ३, ८ : २३.

अन्व(नु-अ)व/इचुत्, अन्व-
वश्चोतयति आपथौ २, १९, ७.

अन्व(नु-अ)व/सृज्, ँअन्ववसृज-
तात् आपथौ ३, ३, १; शांथौ ५,
१७, ३.

अन्वव-सर्ग- -र्गः तैप्रा २२, १०.

अन्व(नु-अ)व/सो, अन्ववस्यति
बौथौ १८, ८ : १०; १६ : ६;
४० : १८; हिथौ ७, ५, २७;
अन्ववस्यन्ति बौथौ ६, ३०:२१;
हिथौ ७, ५, २७^१; ७, २१; ८,
१३; अन्ववस्येत् बौथौ १४, २४:
३२; आपथ १, १८, ७; १५; २१,
३; हिथ १, ५, ७७; ८४; ६, ३२.

अन्वव-साय आपथौ ८, २२, ६; ९,
९, ८; १७, २४, १३; भाथौ ८,
२४, ७; ९, १२, ६; ११; वाथौ

१, ७, ५, ७; हिथौ ५, ६, १२; १२,
७, २४; १५, १, १९; ३, ७;
अप्राय ५, १.

अन्व(नु-अ)व/सु, अन्ववसावयति
आपथौ ११, १०, ४^१; १७, १९,
१०; बौथौ ६, २७ : १२; १०,
५७ : २२; ११, ७ : ११; वैथौ
१, ५ : ११; ६, ८ : १०; १४,
११ : ३; १९, ६ : १२५; हिथौ
२, २, २४; ७, ७, ११; १२, ६,
१३; भाशि ११११^१.

अन्व(नु-अ)व/ह, अन्ववहरेत् भाथौ
१२, ५, ९.

अन्वव-हरिव्यत्- -व्यन् भाथौ १२,
५, ९.

अन्वव-हारम् भाथौ १, ३, १, ३१.

अन्वव-हृत्य आपथौ २, १२, ७; १३,
११ × ×

अन्ववा(नु-अव/अ)न्, अन्ववा-
निति शांथौ २, ९, ८; ६, ८, २.

अन्ववे(नु-अव/इ), अन्ववैति बौथौ
८, १९ : ९; ९, १३ : २९; वैथौ
१६, २४ : ६; निस् ९, १० : १६;
२१; १३ : १४; अन्ववयन्ति
निस् २, ३ : १९; अन्ववायन्
शांथौ १४, ३२, १; बौथौ १४,
८ : ९; अन्ववेयुः शांथौ १४,
३२, १.

अन्वव-यत्- -यतः निस् ३, १२ : ३७.

अन्ववा(व-अ)य- -यः निस् ५,
३ : ५.

अन्ववे(व-इ)न्य आपथौ १४, ८, ७;
लाथौ १०, ८, ९.

अन्ववे(नु-अव/ई)क्ष्, अन्ववेक्षते

बौथौ १, ७ : १३; अन्ववैक्षन्त
बुदे ७, ६३.

अन्ववेक्षत काट २६, ८^१.

अन्ववे(व-ई)क्षण- -णम् भाशि.
१६, ६.

अन्व(नु/अ)ञ् (व्याप्तौ), अनु...अष्ट-
या १३, २^१.

अन्व(नु-अष्टक>)ष्टका^८ -का आपठ
२२, ११; -काः विध ७६, १;

-काम् गंध १९०; -कायाम्
आपठ २२, ९; -कासु पाठ ३,
३, १०; विध ७३, ९; ७४, १.

अन्वष्टकी^९ -क्याम् वाध ११,
४३.

अन्वष्टक्य^९ -क्यम् आठ २, ५, १;

कौष्ट ३, १५, ७^१; शांष्ट ३, १३, ६;

काष्ट ६५, १; गोष्ट ४, २, १; जैष्ट

२, ३ : ९; द्राष्ट ३, ५, १; कप्र २,
८, २४; -क्याय गोष्ट ४, १, ५;

-क्ये कप्र ३, १०, ८.

अन्वष्टक्य-स्थालीपाक^{१०} -केन

गोष्ट ४, ४, १.

अन्व(नु-अ)ष्टम-देश^{११} -शम् आठ
३, ७, ४; कौष्ट २, ६, ३; शांष्ट

२, ९, १.

अन्व(नु/अ)स् (भुवि), ँअनु...
एधि आपथौ २२, १९, १; हिथौ

१७, ७, १०; ँअन्वसानि शांथौ

१८, २१, ८; अनुप्यात् आपथौ

६, १२, ५; भाथौ ६, ११, ३; १४,

४; द्राथौ १४, १, ५; १५, ३,

२०; लाथौ ५, १२, ४.

अन्व(नु/अ)स् (क्षपणे), अन्वस्येते
बौथौ १५, २ : २२; अन्वस्यन्ते

- a) सप्र. आपथौ ११, ८, २ उपास्यति इति पाठे । b) बौदुम्बरीम् इत्यन्वितः लक्षणे कप्र. अनुः इति
रुदत्तः । c) नाप. ([मार्गशीर्ष-पौष-माघ-फाल्गुनमासीयकृष्णपक्षस्य] चतस्रः नवम्यः) । प्राप्त. उप. = अष्टमी-।
d) स्त्री. डीप प्र. उसं. (पा ४, १, ३०) । e) नाप. (कर्म-विशेष-) । f) क्याम् इति पाठः ? यनि. शोधः (तु-
पूर्वापरम्) । g) सस. । h) अस. वा. क्रिवि. । उप. = वायव्य-कोण ।

बौश्री ८, १६ : १९.
 अन्व(नु-अस्त >)स्ता^a-स्ते वाधूश्री
 ३, ६९ : ४१.
 अन्व(नु-अ)ह^b-हम् आश्री ७, ३,
 ४; १५; २०; XX शाश्री; आपध
 २, २३, १०.
 अन्वा (नु-आ) √ काङ्क्ष्, अन्वा-
 काङ्क्षेत् शंघ १३२.
 अन्वा(नु-आ) √ कृ, अन्वाकरोति
 वाधूश्री ३, ७५ : २.
 अन्वा(नु-आ)कृति^d- तयः शांघ ४,
 १९, ५^e.
 अन्वा(नु-आ) √ ख्या > अन्वा-ख्यान-
 -नम् वाधूश्री ३, १२ : १; ४,
 ४१ : ६; ९० : ३२; ९२ : ९;
 ९८ : २०; ११५ : ५^f; -नानि
 वाधूश्री ४, २९ : १८; -नेन
 वाधूश्री ३, ३६ : ३; ५; ४, २० :
 ५^g; ७४ : २४; २६; २७.
 अन्वा-ख्याय हिश्री १३, ७, १३;
 लाश्री ९, २, ५.
 अन्वा-ख्यायम् आपश्री १८, २१, ४.
 अन्वा (नु-आ) √ गच्छ्, गम्,
 अन्वागच्छत् वाधूश्री ३, १९ :
 ३; ७; ९; अन्वागच्छेताम् वाधूश्री
 ४, ६५ : २.
 अन्वागमेमहि माश्री २, ५, ५, २८.
 अन्वा-गन्तु-न्ता माश्री २, ५, ५,
 २१.
 अन्वा (नु-आ) √ चक्ष्, अन्वाचष्टे
 आपश्री ८, १६, ७; २४, ५, ४;
 वैश्री ९, ९ : ११; हिश्री २१, ३,
 ४; अन्वाचक्षते शंघ १३२.

अन्वा-चक्षण- -णः माश्री १, ७, ६,
 ४६.
 अन्वा(नु-आ) √ चम्, अन्वाचामति
 आश्री १, २४, २८; अन्वाचामेत
 आश्री १, १३, १.
 अन्वा(नु-आ) √ चि > अन्वा-चय- >
 °य-वचन- -नात् पावा ७, ३,
 ११९.
 अन्वाजे अन्व(नु √ अ)ञ् द्र.
 अन्वा(नु-आ) √ तञ्च्, अन्वातनक्ति
 वैश्री ३, ८ : ७.
 अन्वा-तच्य वैश्री ३, ८ : ७.
 अन्वा(नु-आ) √ तन्, अन्वातनोति
 भाश्री १२, ४, १८; हिश्री ७, ४,
 ४२.
 अन्वाततान शाश्री १३, १२,
 १३१.
 अन्वातांसीत् भाशि ६२१; (अनु)
 आतांसीत् तैप्रा १६, १३१.
 ? अन्वातयते^h वाश्री १, १, ४, २८; ५,
 ४, २५.
 अन्वा(नु-आ) √ दिश् > अन्वा-दिष्ट-
 -ष्टः पा ६, २, १९०.
 अन्वा-देश- -शः या ६, १३; ३१;
 ७, ९; तैप्रा ११, ५८; पावा २,
 ४, ३२; -शे आश्री ३, ४, १०;
 या ४, २५; अप्रा २, ४, ३; पा,
 पावा २, ४, ३२.
 अन्वा-देशकⁱ- -कौ तैप्रा २२, ५.
 अन्वा (नु-आ) √ धा, अन्वादधाति
 आश्री १, १, २; शाश्री ४, २, १;
 बौश्री १, १ : ५; भाश्री ४, १,
 ३; वाधूश्री २, १० : १२; वाश्री

१, १, २, ३; वैश्री ३, १ : १३;
 २; ४; ६-९; हिश्री १, २, १; ४;
 वैताश्री १, १२; आमिण् १, ७,
 ३; ३; कौस् ५५, १४; अन्वादधाति
 वाधूश्री २, १० : २; ७; अन्वाद-
 ध्यात् बौश्री १९, १ : ८; २०,
 १ : १८; २३; २५; २७; ३५;
 ३६; २४, २१ : १५; २३ : ३;
 ३४ : ४; ५; १३; वाधूश्री २,
 १० : ९; १२; वाग् १, २८.
 अन्वा-धान- -नम् आपश्री १, १,
 ७; -नस्य वाधूश्री २, १० : १;
 -ने शाश्री ४, १६, ५; बौश्री २०,
 १ : १७; कौग् ५, ८, ५.
 अन्वाधान-काल^j- -ले आमिण्
 १, ७, ४ : २.
 अन्वाधान-परिस्तरणो(ए-उ)
 पवास^k- -साः आपश्री १, १४,
 १७.
 अन्वाधान-प्रभृति- -ति बौश्री
 २०, १ : ४५.
 अन्वाधान-वर्जम् बौश्री २७,
 ११ : ५.
 अन्वाधान-व्रतोपायन-जागरणा
 (ए-आ)रण्याशन-परनीसनहन-
 ब्रह्मवरण- -णानि वैश्री १२,
 १५ : ५.
 अन्वाधाना(न-आ)दि^l- -दीनि
 हिश्री ३, ५, १.
 अन्वाधाना(न-अ)र्थ^m- -र्थान्
 बौश्री २४, २१ : ७.
 अन्वा-धाय आपश्री ८, १, ९; ५, २६;
 ९, १३; १३, १०; १३×बौश्री.

a) विप. (अनानय-रज्जु-) । गस. उप. कर्मणि क्तः प्र. । b) वैप १ द्र. । c) सप्र. हिध २, ५, १५६
 प्रत्यहम् इति पाठे. । d) = आकृति- । प्राव. । e) सप्र. अन्वाकृतयः <> अन्वावृतः इति पाठे. ।
 f) °नाम् इति पाठः ? यनि. शोधः । g) °ख्यायेन इति पाठः ? यनि. शोधः । h) पाठः ? (अनु √ वा [अनुवाने]
 > [कर्मणि] *अनु-वात्- > नाधा. *अनु √ वाति >) *अनुवातयते इति शोधः । i) = अनुकर्षक- । गस. ।
 j) पस. । k) दस. । l) विप. । बस. । m) विप. (विह्वल्य-) । बस. ।

अन्वा-धि^२ - धिः आपथ्रौ १४, १२, ३^०.
 अन्वा-धीयमान- ने आपथ्रौ ४, १, ८; वैथ्रौ ३, २ : २; -नेषु हिथ्रौ ६, १, १८.
 अन्वा-धेय, या- -यम्^० वाध १६, १६; -याथै^d बौथ्रौ १५, १ : १६; ५ : ७; २६, १० : १०; १२; वाधूथ्रौ ३, ६९ : ३७.
 अन्वाधेय-क^c - कम् विध १७, १८.
 अन्वा-हित- -तः बौथ्रौ २०, १ : २२; २३, १९ : १९; अप्राय ५, ३; -तम् बौथ्रौ १, २ : १६; २५; -ताः बौथ्रौ २४, २२ : १; -तानाम् बौथ्रौ २७, ५ : १; ११ : ३; -तेषु आपथ्रौ ४, २, २; बौथ्रौ २३, १ : २०; वैथ्रौ ३, २ : ९; हिथ्रौ ६, १, १९.
 अन्वाहिता(त-अ)भि^e - भिः आपथ्रौ ९, १, ८; हिथ्रौ १५, १, ८; अप्राय ५, ३; -भेः आथ्रौ ३, १०, ३; आपथ्रौ ९, १, ११; माथ्रौ ९, १, ११; हिथ्रौ १५, १, ११; १८.
 अन्वा(नु-आ)√नी, अन्वानयते बौथ्रौ १४, ३ : १४; १५; अन्वानयति बौथ्रौ ६, ३० : १०; अन्वानयेयुः आपथ्रौ १०, १६, १३; माथ्रौ १०, १०, ९.
 अन्वा-नीय आपथ्रौ ६, २९, २२; माथ्रौ ३, ३-४, २.
 अन्वा(नु-आ)न्त्र^f - > ऋन्वान्त्र-
 -न्त्यम् अत्र २, ३१^g; अप्रा ३,

२, १२.
 अन्वा(नु√आ)प्, अन्वापत् या ६, ८.
 अन्वा(नु-आ)प्^h - न्वाप् या २, २२.
 अन्वा(नु-आ)√भञ्ज, अन्वाभजति वाधूथ्रौ ४, ११ : १५; १६; ऋन्वाभज वाधूथ्रौ ४, २ : ७; १०; अन्वाभजतम् वाधूथ्रौ ४, ७ : ५; ७; ८ : १; ३; अन्वाभजत वाधूथ्रौ ४, ११ : १३; अन्वाभजत् वाधूथ्रौ ४, २ : ८; ११.
 अन्वाभजे शांथ्रौ १४, ६२, २; अन्वाभजेतुः वाधूथ्रौ ४, ७ : ७; १०; ८ : २.
 अन्वा(नु-आ)√भू, अन्वाभवत् चाञ्च ४२ : ५^f.
 अन्वा(नु-आ)√यच्छ, अन्वायच्छेत् बौथ्रौ १३ : ४.
 अन्वा(नु-आ)√यत्, अन्वायतन्ते माथ्रौ ५, १, १, ११.
 अन्वायातयति वैथ्रौ १९, ६ : ११३; माथ्रौ २, २, १२; ३, ४; ४, ७; अन्वायातयन्ति शांथ्रौ १३, २०, १०; अन्वायातयेत् आपथ्रौ ६, ३०, १२; वैथ्रौ ८, २ : ११; अन्वायातयेयुः आथ्रौ ४, ११, ५; ९, २, ६^३; ९; १९; २२; शांथ्रौ १२, ९, ८.
 अन्वायात्यन्ते शांथ्रौ १४, ३, १; ५, ५.
 अन्वा-यत्, त्ता- -त्तः वाधूथ्रौ ३, ६ : ४; वाथ्रौ ३, २, २, २४; -त्ताः आथ्रौ १०, १०, १०^३; वाधूथ्रौ ४, १५ : १३; -त्तानि बौथ्रौ २४, ११ : ९.
 अन्वा-यात्य बौथ्रौ २९, ३ : ७.

अन्वा-यात्य, त्या- -स्यानि आथ्रौ ३, ५, ६; -स्याभ्यः आथ्रौ १, ५, ३०.
 अन्वायात्यै(त्य-ए)ककपाल^१ -
 -लाः आथ्रौ २, १५, ५.
 अन्वायम् अन्वि द्र.
 अन्वा-रुध्य- प्रभृ. अन्वा√रम् द्र.
 अन्वा(नु-आ)√रम्, अन्वारभते शांथ्रौ ४, ११, २^१; ७, ५, ९; काथ्रौ; अन्वारभते आपथ्रौ ३, २, ८; ७, १५, ७; माथ्रौ; अन्वारभन्ते शांथ्रौ १०, २१, ६; काथ्रौ ३, ४, ९; ८, ६, ३४; आपथ्रौ; अन्वारभन्ति कप्र १, ८, ५; अन्वारभे आथ्रौ ६, ५, २^३; ऋन्वान्...भारभे शांथ्रौ ६, ८, १०; काथ्रौ १३, १, ११; आपथ्रौ; ऋन्वारभामहे आथ्रौ १, ३, २७; शांथ्रौ; आपथ्रौ २४, १२, ७^६; बौथ्रौ ३, २७ : २९^६; ऋन्वारभस्व काथ्रौ ७, ६, १०; ऋन्वारभध्वम् काथ्रौ ४५, १०; माथ्रौ २, १, १४; ऋन्वान्...भारभध्वम् आपथ्रौ १४, १७, १; २८, ५; वैथ्रौ; अन्वारभन्त वैथ्रौ ७, ९ : ११; अन्वारभेत आथ्रौ १, ३, २५; काथ्रौ ११, १, १८; बौथ्रौ ३, २७ : २९; वैथ्रौ १०, १५ : ११; दाथ्रौ १५, २, ३; १८; लाथ्रौ ५, १०, १८; २०; अन्वान्...भारभेत बौथ्रौ २०, ४ : २५; अन्वारभेयाताम् आपथ्रौ ८, ६, २६; बौथ्रौ २९, १२ : १८; माथ्रौ ८, ८, ११; वाथ्रौ १, ७, २, ३४; हिपि २३ : ६; ७; जैथ्र १,

a) नाप.(अनुवजनीय-भाग-). कर्मणि किः प्र. । b) सप्र. हिथ्रौ १०, ६, १० अनुषङ्गम् इति पाठे. । c) नाप.(शुक्लतया बन्धुभिर्दत्त-। स्त्री-धन-). । d) नाप.(अन्वाहिता-। दासी-). । e) नाप.(अभिहोत्रिन्-). । बस. । f) वैप १ द्र. । g) ऋन्त्यम् इति पाठः? यनि. शोधः (तु. सप्र. शौ २, ३१, ४). । h) =अनूप- । 'अन्वाप्यतेऽसावुदकेन, इति कर्मणि प्र. । i) विप. (याग-). कस. । j) ऋन्ते इति शोधः इति C. (वैतु. भाष्यं यनि.?). । k) पाठे. वैप १ हुषामहे ऋ ८, ११, ६ टि. द्र. ।

२० : १८; अन्वारभेरन् काश्रौ
१३, १, ११.

अन्वारिरीप्सन्ते^१ वाधूश्रौ ४,
२८^३:३; अन्वारिरीप्सेत^१ वाधूश्रौ
४, २८^३:२.

अन्वारब्ध, ष्धा- -ब्धः काश्रौ ८, ८,
२७; वैश्रौ १२, २१ : १२; आगृ; -
ब्धम् काश्रौ ६, ३, ११; आपश्रौ
१७, १९, ५; माश्रौ; -ब्धयोः
बौश्रौ १२, ११ : १०; आगृ २,
७, ३:८; -ब्धाः आपश्रौ १२, १६,
१७; वैश्रौ १६, १२ : १७; लाश्रौ
१०, ११, १४; -ब्धान् शाश्रौ ४,
१६, ७; -ब्धाभ्याम् कौस् ७९,
१६; -ब्धाम् कौस् ५, ८, ६;
-ब्धाय कौस् ७, २१; ५३,
६; १२; अप ३०^३, १, १५;
-ब्धायाः गोगृ २, १, २३;
-ब्धायाम् आपश्रौ ३, ९, १०;
बौश्रौ; -ब्धायै कौस् ४४, ३; -ब्धे
आश्रौ ८, १४, ४; शाश्रौ १५, २३,
१; काश्रौ; -ब्धेन वैश्रौ ७, ९ : ६;
-ब्धेषु आश्रौ ५, २०, ६; काश्रौ
१२, ४, ८; १९, ३, २८; कौस्
६२, १३.

अन्वारब्ध-प्रेत^१ - तस्य आगृ ३,
१०, ३ : १६.

अन्वारभमाण- -णः वैश्रौ १, १८ :
१; -णस्य वैश्रौ ८, ५ : ८.

अन्वारभ्य शाश्रौ १, ५, ८; ६, ३;
५, ४, १; १७, १३, १२; काश्रौ.

अन्वारम्भ^१ - म्भः बौश्रौ १४,
२० : १; -म्भम् बौश्रौ २, २१ :
१; ६, ५ : २४; २१, ९ : २०;
-म्भस्य बौश्रौ २, २१ : १;

-म्भे बौश्रौ २१, १२ : २२;
-म्भेण वाश्रौ ३, २, ६, ४५.

अन्वारम्भ-विधान^१ - तस् (:) कप्र
३, ५, २.

अन्वारम्भे(म्भ-इ)ष्टि^१ - -ष्टिः
बौश्रौ २४, १७ : १४; १६; -ष्टिम्
बौश्रौ २०, १८ : ३२; २४, १६ :
१५; -ष्टयाम् बौश्रौ २०, १८ :
१५; ३२.

अन्वारम्भण- -गम् हिश्रौ १०, ४,
३२; -गे हिपि ४ : ६.

अन्वारम्भणीय, या^१ - यम् वैश्रौ
२०, ३१ : ४; -यया लाश्रौ १०,
१९, १; -या शाश्रौ २, ४, १;
काश्रौ ४, ५, २१; आपश्रौ ८,
२२, १८^३; २४, ४, १९; काठश्रौ
१६; बौश्रौ २७, ६ : २९; वैश्रौ
१, १७ : १५; -याभिः काश्रौसं
३१ : १३; -याम् आश्रौ २,
८, १; आपश्रौ ५, २३, ४; ८,
१, ३; भाश्रौ ५, १५, ९; वैश्रौ
१, १७ : ८; १०, १ : ७; हिश्रौ
३, ५, २१; २६; २९; ४, १, ४;
५, १, २; -यायाः वाश्रौ १, ४, ४,
४१; -यायाम् हिश्रौ ६, ५, ३९;
द्राश्रौ १२, ४, १९; लाश्रौ ४,
१२, १४; -यायै काठश्रौ १७;
वाश्रौ १, ४, ४, ४०.

अन्वारम्भणीय-देवता-

-ताभ्यः शांश्रौ १, ३, ६.

अन्वारम्भणीया(य-अ)न्त^१ -

-न्तम् काश्रौ २४, ६, ३२.

अन्वारम्भणीया-स्थान^१ - नम्

भाश्रौ ८, १, ५.

अन्वारम्भयित्वा आपश्रौ १०, ३०,

५; काठश्रौ ८८; भाश्रौ ३, ८,
११; हिश्रौ १३, ६, ३३; वागृ
३, १४; हिपि २२ : ७.

अन्वा(नु-आ)✓रुह्, अन्वारोहति
आपश्रौ २२, १५, १; वाधूश्रौ
३, ३९ : १७; अनु...आरोहति
बौश्रौ १४, ६ : २५; ९; ँअन्वा-
रोहामि शाश्रौ १७, १६, १-४;
आपश्रौ १६, २३, १०^२; वैश्रौ
१८, १७ : २९; ३०; हिश्रौ ११, ७,
३१^२; अन्वारोहेत् आपध १, ८,
१२; हिध १, २, १००.

अन्वारोहयेत् बौश्रौ १४, १९ :
३०.

अन्वा-रुह्य आपध १, १४, १६; हिध
१, ४, ४८.

अन्वारोप्य आपश्रौ १६, १२, ६.

अन्वा-रोह, हा^१ - हम् आपश्रौ १२,
१७, १५; १३, ३, १; ११, १;
बौश्रौ १०, ३१ : १०; ३९ : १९;
४६ : ४२; -हाः बौश्रौ १४,
६ : ८; -हाणाम् चाश्र ४० : १८;
१९; ४२ : १२; -हान् आपश्रौ
१७, ११, ४; १३, २; बौश्रौ १४,
६ : १; माश्रौ ६, २, ६, ११;
हिश्रौ १२, ४, ४; चाश्र ४० :
२०; -हाम् वैश्रौ १८, १७ : २९;
-हे आपश्रौ १६, २३, १०; हिश्रौ
११, ७, ३१.

अन्वा-रोहण- (> °हणीय- पा.)
पाग ५, १, १११.

अन्वा(नु-आ)✓लम्, अन्वालभते
कौस् ६९, ३; ८०, १०; अन्वालभेत
अप्राय ३, ८; अन्वालभेरन् आश्रौ
१, १३, ७; द्राश्रौ ६, २, २१;

a) धा. ईत्स् अभ्यासलोपाऽभावश्च उंसं. (पा ७, ४, ५५; ५८)। b) विप.। बस.। c) भाप., नाप.

(इष्टि-विशेष- [बौश्रौ २, २१ : १], तदाख्य-मन्त्र-विशेष- [बौश्रौ ६, ५ : २४])। भावकरणयोः घञ् प्र.। d) षस.।

e) कस.। f) नाप. न. (कर्म-विशेष-), स्त्री. (इष्टि-विशेष-)। g) नाप. पुं. (मन्त्र-विशेष-), स्त्री. (इष्टिका-विशेष-)।

लाश्रौ २, १०, २०; वाध १५, १३; गौध २०, ५.
 अन्वालेभिरे बौश्रौ १८, २६: ११.
 अन्वा-लभ्य वैताश्रौ ३३, २९XX.
 अन्वा(नु-आ)✓वृत्, अन्वावपते कौस् ८०, १२; अन्वावपति आपश्रौ ८, १०, १; भाश्रौ १, १९, १२; वैश्रौ ४, ४: १२; ९, १: ११; हिश्रौ १, ५, २३; अन्वावपेयुः आपश्रौ १०, १६, १३; भाश्रौ १०, १०, ९; हिश्रौ १०, २, ५१.
 अन्वो (न्वा-उ) प्य आपश्रौ १, १८, २; ८, ६, १४; १२, ४, ७.
 अन्वा(नु-आ)✓विश्र > ऋन्वा-विश्य आपश्रौ १५, १९, ४; बौश्रौ ९, १८: १८; भाश्रौ ११, १९, १३; हिश्रौ १, १६, १९.
 अन्वा(नु-आ)✓वृत्, अन्वावर्तते हिश्रौ २१, २, २०; ऋन्वावर्ते शाश्रौ १, ६, ५^a; ४, १२, १०^b; आपश्रौ ४, १५, २^b; बौश्रौ ३, २१: १२^b; २७: ३३^b; भाश्रौ ४, २१, २^b; वैश्रौ ७, १३: ६^b; हिश्रौ ६, ४, २१^b; २१, २, २०^b; जैश्रौ १३: १०^b; १८: ३^b; शांश्रु २, ३, २^a; ऋन्वावर्तस्व कौश्रु २, २, १२^a; गोश्रु २, १०, २३^a; अन्वा-वर्तत आश्रौ ५, १, १६; हिश्रौ २१, १, २^f; द्राश्रौ १४, १, १४; लाश्रौ ५, ५, १३; अन्वावर्तेरन् द्राश्रौ ३, ३, २५; लाश्रौ १, ११, १६.
 अन्वा-वृत्त- -त्ता: शाश्रौ १०, १५, २.

अन्वा-वृत्त्य शाश्रौ १, ६, ५; ४, १२, १०; ६, ७, १०; माश्रौ.
 अन्वा(नु-आ)वृत्^c -वृत्त: कौश्रु ४, ४, २०^f.
 अन्वा(नु✓आ)स्, अन्वास्ते बौश्रौ ३, ४: १४; २५, २६: १६; भाश्रौ; ऋन्वासाते आपश्रौ २, ५, १०; अन्वासीत हिश्रु १, २, ४९^d.
 अन्वा(नु-आ)स्य हिश्रौ १७, १, ३२.
 अन्वा(नु-आ)✓सद्, अन्वासादयति वैश्रौ १३, ११: २.
 अन्वा(नु-आ)सन-शयन^e -नम् वैध १, २, ३^f.
 अन्वा(नु-आ)✓सिच् > अन्वा-सिच्य माश्रौ १, ६, ४, १९; ६, २, ५, १७.
 अन्वा-सेचन- -नम् कौस् ७५, २१.
 अन्वा(नु-आ)✓स् > ऋन्वा-सारिन्^h -०रिण: आपमं २, १८, ४४; भाश्रु २, १०: ६; हिश्रु २, ९, २; -रिभ्य: आपमं २, १८, ४४; भाश्रु २, १०: ६^g; हिश्रु २, ९, २.
 अन्वा(नु-आ)✓स्था, अन्वातिष्ठति बौश्रौ १२, १२: १०; १३: २५; ऋन्वा-आतिष्ठत बौश्रौ ८, १४: ४०.
 अन्वा-स्थाय बौश्रौ ११, ७: ३१; आपिणश्रु ३, ६, ३: १४; बौपि १, ११: ११.
 अन्वा-स्थित- -ता: या ६, ६.
 अन्वा(नु✓आ)ह, अन्वाह आश्रौ १, २, २; १९; XX शाश्रौ; अन्वाहु: वाधुश्रौ ३, १०: १; १३: ११; १४: १; १९: १.
 अन्वा(नु-आ)✓हन् > अन्वा-हत-

-तेषु बौश्रु ४, ९, ३.
 अन्वा-हित- अन्वा✓घा द्र.
 अन्वा(नु-आ)✓ह, अनु...आहरति माश्रौ १, १, २, ११; अन्वाहरन्ति वैश्रौ २, ११: ७; अन्वाहरेत् काश्रौ २५, ५, १५; अन्वाहरेयु: आपश्रौ ६, २८, ३; वाश्रौ १, ५, ४, ४; हिपि २: ९; १४: २१; अप्राय १, ३.
 अन्वाह्रियते कौस् ६, २४.
 अन्वा-हार^h -रम् द्राश्रौ १, १, २६; लाश्रौ १, १, २५.
 अन्वा-हार्य अश्रां २५, ३.
 अन्वा-हार्यⁱ -यं: शाश्रौ १, १२, ११; बौश्रौ १३, १: १८; २४, २९: ६; ११; -र्यम् आश्रौ १, १३, ४; शाश्रौ १, १२, ९; ४, ७, १५; ९, ४; काश्रौ; -र्यस्य आपश्रौ ४, ११, ४; १०, ४, १२; बौश्रौ; -र्यात् माश्रौ १०, १४, ५; -र्ये वैश्रु ४, ५: १२; १४: ६; द्राश्रु ३, ३, ३१; मीस् १२, ४, ४७; -र्येण कौस् ६, २४; २७.
 अन्वाहार्य-कⁱ -कम् काश्रु ४४: १७.
 अन्वाहार्य-स्व- -स्वम् कौस् ६, २५.
 अन्वाहार्य-पचनⁱ -न: काश्रौ ४, ८, १३; बौश्रौ २०, १: २३; १९: २५; २३, ४: २१; -नम् शाश्रौ २, ७, १५; १२, ५; १३, ५; १४, ३; १५, ४; ३ XX -नस्य बौश्रौ २, १२: २४; १६: १०; १९; २१, ४: १७; वैश्रौ; -नात् शाश्रौ २, ७,

a) पाभे. वैप १ परि. अनु मा २, २६ टि. द्र. । b) पाभे. वैप १ परि. तै १, ६, ६, २ टि. द्र. ।
 c) प्रास. उप. < आ✓वृत् । पाभे. पृ २३३ ० द्र. । d) सप्र. आपध १, ६, २६ आसीत इति पाभे. ।
 e) प्रास. (तु. c.), उप. समाहारे द्वस. । f) षे इति c. । g) विप. > नाप. (देवता-विशेष-). । h) गस. उप. भाप. । i) वैप १, परि. च द्र. । j) नाप. (मासिक-श्राद्ध-). ।

१३; ३, १६, १६; बौश्री; -ने
शाश्री २, १०, २; ३, २१, ३; छ,
१४, १५; आपश्री; -नेन शाश्री
२, ८, ७; वाश्री २, १, ४, ३;
आमिगृ ३, ५, ८ : १०; बौपि
१, ७ : १२; हिपि ७ : ३.

अन्वाहार्यपचन-वेला^१-

-लायाम् बौश्री २, ८ : १९.

अन्वाहार्यपचना (न-आ)य-
तन^२- -ने भाश्री ५, ४, १६;
५, ६.

अन्वाहार्य-पृष्ठ^३- -ष्ठः क्षुस् २,
१२ : १; ७; ८; १४.

अन्वाहार्य-वत्^४- -वन्ति गोगृ
१, १, ५.

अन्वाहार्य-शेष^५- -पम् अशा
२५, ३.

अन्वाहार्य-श्रपण^६- -णम् अप्राय
१, १.

अन्वाहार्य-स्थाली^७- -ली वैश्री
११, ९ : १५; -लीम् आपश्री
१, १५, ९; बौश्री १, ४ : ११;
वैश्री छ, १ : १२; हिश्री १, ४,
३७; आमिगृ ३, ४, २ : १२; ५,
७ : ११; बौपि १, ६ : ६; ३, ३,
१२; हिपि ६ : ६.

अन्वाहार्या(य-आ)दि-प्रणवा(व-
आ)दिक^८- -कम् आमिगृ २, ३,
२ : १४; १५.

अन्वाहार्या(य-आ)धिभ्रयण^९-
-णात् वैताश्री २, ४.

अन्वा-हृद्य आश्री ३, १२, २४.

अन्वा(नु-आ)√ङ्, अन्वाङ्गयति कौस्
६०, ३३.

अन्वि (नु√ङ्), अन्वेति काश्री ११,
१, १३; आपश्री XX २४, १२,
७; ङ; ङअन्वेमि आश्री १, ३, २५;
हिश्री १, ५, ६; ७, ८, ३२;
२१, १, १; सु ९, ५; ङअन्वेतु
आपश्री १०, २२, १२^{१०}; वैश्री
१२, १६ : १७^{११}; हिश्री १५,
७, २३^{१२}; आपमं १, ३, ७^{१३}-१३^{१४};
कौगृ ३, ५, ४; ६, २; शांगृ ३, ९,
१; ११, ५; पागृ ३, ९, ५; आमिगृ
१, ५, ४; ४२^{१५}-४४^{१६}; ४५^{१७}; ६,
३ : ३२^{१८}; कागृ २५, ४२^{१९}; २९,
१; ४९, १; ५२, २; बौगृ १,
१, २८^{२०}; भागृ १, १७ : १^{२१};
२^{२२}; ३^{२३}; ४^{२४}; ५^{२५}; वागृ ५,
२०; १५, २२; हिगृ १, १८, १;
२१, १^{२६}; जैगृ १, २१ : २७^{२७};
२८^{२८}; २९^{२९}; ३०^{३०}; अप
१८^{३१}, १, ३; ४; विघ ८६, ९;
ङअनु...णतु आपश्री १४, ३१,
८; अप १८, २४, ३; ४; ङअनु-
यन्तु कौस् ९४, १४^{३२}; ९५,
३; ङअन्विहि आश्री १, ११,
९; २, २, १४; ३, १०, १५; ५,
२०, ६; आपश्री १, ३, ५^{३३}; ५,
१^{३४}; १७, ४^{३५}; १८, ४^{३६}; ७, १९,
४^{३७}; १०, २७, ९^{३८}; ३०, १५^{३९};
१२, १०, १३^{४०}; २२, ४^{४१}; बौश्री
१, २ : २२^{४२}; ५ : २५^{४३}; ३, ५ :
२०^{४४}; ३० : १२; छ, ७ : २^{४५};
६, १५ : १९^{४६}; ७, ५ : ४२^{४७};
६ : २८^{४८}; ८, १५ : ६; १४,
१५ : १५; १५, ७ : १५; २४,
१ : ५^{४९}; भाश्री १, ४, १८^{५०}; १८,

१२^{५१}; २०, ५^{५२}; ७, १४, १८^{५३};
१०, १९, २^{५४}; वाश्री १, २, ४,
३६^{५५}; वैश्री ३, ४ : २०^{५६}; छ,
३ : १२^{५७}; ६ : ३^{५८}; १२, १९ :
१८^{५९}; २१ : १५^{६०}; १५, १२ :
६^{६१}; २८ : १^{६२}; हिश्री १, ५,
३२^{६३}; आपमं २, २१, ३०; आगृ
छ, ६, ७; आमिगृ ३, ८, २ : ४७;
बौपि १, १५ : ५३; वागृ ५, २०;
अप्राय १, ३; ङअनु...इहि बौश्री
९, १६ : १९; ङअन्वित शाश्री
१५, २७, १; वाधूश्री ३, ७५ : ३;
अन्वेताम् वाधूश्री ३, ४१ : ३२;
अन्वायन् वाधूश्री छ, २६^{६४} : १;
कौस् ६८, २६^{६५}; अन्वियात्
आपश्री १७, १४, ८; बौश्री १६,
२७ : १७; माश्री ३, २, १४;
निसू १०, ७ : १८; बौध २, १,
१६; अन्वियाताम् निसू ८, ३ :
१७; अन्वियुः दाश्री ६, १, २०;
लाश्री २, ९, १८; निसू ८, ३ :
२१; १३ : १३; १५; १७.
अन्वीयुः या ११, १८.

अनु-यत्- -यन्तम् निसू ८, ३ : २४;
१० : ४४.

अन्व(नु-अ)य^१- -यः निसू ८, १ :
२; मीसू ९, २, ३८; १०, ५,
५४; -यम् निसू ९, ३ : ३;
मीसू ९, २, ३६; -यस्य शाश्री
१, १६, २; -याः शंघ ७.

अन्वय-व्यतिरेक^२- -काम्याम्
पावा १, २, ४५; ३, १.

अन्वया(य-आ)कृति-संपन्न^३-
-सम् अप ३, ३, ६.

a) षस. । b) नाप. (षडह-विशेष-) । बस. उप. = स्तोत्र- । c) विप. । अन्वा^१ = नान्दीश्राद्ध- ।

d) नाप. । षस. वा मलो. कस. वा । e) विप. (नान्दीश्राद्ध-) । समाहारे दस. पू. च उप. च बस. । f) पाभे.
वैप १ परि. अनुनेषि वै १९, ४६, ४ टि. द्र. । g) पाभे. वैप १ विश्वकमे तै ३, २, ६, १ टि. द्र. । h) पाभे. वैप १
वीहि मा ११, १५ टि. द्र. । i) वैप १, परि. च द्र. । j) दस. । k) विप. (सुम्बहरोविद्-) । दस. > तुस. ।

अन्व(नु-अ)यन- ने माश्रौ २, ५, ५, १४.
 अन्वा(नु-आ)यम् अप २०, ७, ७.
 अन्वि(नु-इ)त- -तः अप ६७, ८, ६; विध १, ७; वृदे ६, १४२;
 -ङ्गत्मा अपश्रौ ९, ७, १०; बौश्रौ १४, २४ : २१; २९, ३ : १५;
 माश्रौ ९, १०, ९; हिश्रौ १५, २, २७; -ताः अप ५२, २, १; -तौ या १, १२; १४; २, १.
 अन्विता(त-अ)प्रतिषेध^६- -धात् अपश्रौ ५, १३, १०.
 अन्वि(नु-इ)ति- -तिः वैताश्रौ २०, १३.
 अन्वे(नु-ए)तवे या ११, २०^१.
 अन्वे(नु-ए)तवै बौश्रौ ८, १९; १२^१; शुप्रा २, ४७.
 अन्वि(नु-इ)च्छ, ष, अन्विच्छति पा ५, २, ७५; अन्विच्छे पागृ ३, ३, ५^१; अन्विच्छाम वाधूश्रौ ४, २६ : ८; १५; १७; अन्वेच्छत् वृदे ५, १९; अन्वेच्छन् शाश्रौ १४, ४०, २४^०; वाधूश्रौ ४, २२ : ११; २६ : २२^१; २६^२ : ६; १०३ : ११; अन्विच्छत् अप १, ९, १; आपध २, २१, १३; बौध २, १०, ६४; हिध २, ५, १२२.
 अन्वेव्यति वाधूश्रौ ३, ४१ : ३०.
 अन्वैषुः बौश्रौ १८, २९ : १४; ३३ : २; वाधूश्रौ ४, ११ : ११.
 अन्वि(नु-इ)च्छत्- -च्छन् कागृ १०, २^०; वागृ ८, १२^०; विध ५७,

१५; कौशि ३६.
 अन्विष्य(त>)न्ती- -न्ती वृदे ८, २७.
 अन्वे(नु-ए)ष्टुम् ऋअ २, १०, १०८.
 अन्वे(नु-ए)ष्टृ- -ष्टा पा ५, २, ९०.
 अन्वे(नु-ए)ष्य वैगृ ५, १५ : १७.
 अन्वे(नु-ए)ष्यत्- -ष्यन् मागृ १, ७, १^०.
 अन्वि(नु-इ)ष्टक^१- -कम् आपश्रौ १९, १३, ११; बौश्रौ ९, १७ : ४०; १०, १९ : १८; १९, ५ : २७; हिश्रौ २३, २, ४४.
 अन्वी(नु-इ)क्ष्, अन्वीक्षते शाश्रौ ८, १, ७; बौश्रौ; ऋअन्वीक्षे आपश्रौ १५, ४, ७^१; बौश्रौ ९, ४ : १२^१; भाश्रौ ११, ४, ६^१; माश्रौ ५, २, १५, १५^१; १७; वैश्रौ १३, ५ : १३^१; हिश्रौ २४, १, २२^१; अन्वीक्षेत आपश्रौ ६, १७, ११; १३, १०, ४; बौश्रौ.
 अन्वीक्षयेत् द्राश्रौ ५, ४, ८.
 अन्वी(नु-ई)क्षण- -णम् भाश्रौ ४, १, २६; शोध २५२.
 अन्वी(नु-ई)क्षम् कौसू ४२, २२.
 अन्वी(नु-ई)क्षमाण, णा- -णः माश्रौ १, १, २, २३; २५; कौगृ २, ५, ३; कौसू ३८, २२; -णा आम्रिगृ २, ७, ६ : १.
 अन्वी(नु-ई)क्षा- > अन्वीक्षिकी^१- -क्याम् गौध ११, ३.
 अन्वी(नु-ई)क्ष्य निस् २, ९ : १६; आपध २, १३, ९; हिध २, ३, ९.
 अन्वी(नु-ई)क्ष्यमाण- -णः अप ४२,

१, ५.
 अन्वीप^१- -पम् आपश्रौ १८, १३, ४; ५; हिश्रौ १३, ५, १४^१; कौसू ३०, १३; ७५, १६.
 अन्वीपिक- पा ४, ४, २८.
 अन्वीप-सार(णि>)णी^१- -णिनाम् वाश्रौ ३, ३, २, ११.
 अन्वृ(नु-ऋ)ञ्च^१- -ञ्चम् आश्रौ ७, १०; ६; ८, १, १२; कौसू २१, ७; २४, २; २८, ३; ३५, १४; ३८, २; ४२, १९; ४७, १८; ४९, १३; ८७, २९; अप ४४, ३, ४; ऋअ २, १०, १८३.
 ऋअन्वृ(नु-ऋ)जु^१- -जवे बौश्रौ १३, १३ : १; हिश्रौ २२, ३, २.
 अन्वे(नु-आ-इ) अन्वेति बौश्रौ १५, ६ : १६; २४ : १५; अन्वायन्ति बौश्रौ ७, १७ : १०; ३१; ८, ७ : १८; ८ : १६; १३ : २५; ११, १२ : ९; १२, १६ : १०; हिश्रौ १४, २, ४५; ऋअनु... ऐतु, अनु^२ (ऐतु) मागृ १, १३, ७; वागृ १५, ४; ऋअनु... आयन्तु मागृ १, १३, ७; ९; वागृ १५, ४; ऋअन्वेहि बौश्रौ ९, १६ : २५; आम्रिगृ १, १, ३ : २३^१; हिगृ १, ५, ११.
 अन्वे(न्वा-इ)त्य काश्रौ ११, १, ८; माश्रौ ५, १, ३, १५; ५, ५९; हिश्रौ १०, ८, २९.
 अन्वेतवे, अन्वेतवै अन्वि द्र.
 अन्वेष्टुम्, ष्टृ-, ष्य, ष्यत्- अन्विच्छ द्र.

a) पस. । b) पाभे. वैप १ परि. अन्विच्छे टि. द्र. । c) अन्विच्छत्- > -च्छन् इति पाठः स्यादिति c. प्रस्तावः ? । d) अन्विच्छन् इति पाठः ? यनि. शोधः । e) सप्र. अन्विच्छन् <> अन्वेव्यन् इति पाभे. । f) अस. वा. क्वि. । g) पाभे. वैप १ प्रतीक्षे का २, ३, ४ टि. द्र. । h) नाप. (न्याय-विद्या-)। तदस्य प्रयोजन-मित्यर्थे ठञ् प्र. (पा ५, १, १०९) । i) वैप १, २२३ h द्र. । j) विप. (२अप-)। उत. । k) तु. वैप १, परि. च; वैतु. भाष्यकृत [हिश्रौ.] कस. इति । l) पाभे. वैप १ परि. अनु... एत टि. द्र. ।

अन्वोप्य अन्वा ✓वप् द.

✓*अपु, अप्सन्त शैशि १०७फं.

१अपु^a-> ङअपु-तुर^a- -तुरः उस्
८, १६; -तुरम् जुस् १, १ : २;
२, ४ : ६.

अपु-तुर्य^a- -ये शांश्री ८,
१६, १फं.

*अपु-स^a-> ✓*अप्स^a>

ङअप्सस्^a- -प्सः बौश्री
१०, ४५ : ४; हिश्री १२, १,
२८; अपु ४८, ७९; या ३, ५;
५, १३३.

२अपु^b- पाउ २, ५८.

*अघु>द्- अङ्गिः आश्री ६, ५,
३; XX; शांश्री ८, ९, २फं^o; काश्री
२, ५, २१; आपश्री १, २४, ५[?]
फं^o; बौश्री १, ९; ७फं^o; १७,
१ : ८[?]; २०, ८ : ३१फं^o; भाश्री
१, २५, ५फं^o; माश्री २, १, २,
७फं^o; वाश्री १, ३, १, १५[?]फं^o;
आमिगु २, १, ३; ४[?]; मागु १, ११,
६फं^o; वागु १४, २फं^o; तैपा ११,
८फं^o; पा ४, ४, १३४; अद्भ्यः
शांश्री ८, २८, ५; XX; काश्री.

अपु- अपः आश्री १, ८, २; XX;

काश्री १६, ३, १फं^o; १९, ५,
१८फं^o; ङआपश्री¹ ७, २७, १६;
८, ८, १८; १८, १०[?]; १३, २२,
६; १६, २, ११^o; ङबौश्री¹ ४,
११ : ६; ५, ९ : २२; ८, २० :
२५; १३, ७ : ६; १७, ३८ :
१४; ङभाश्री¹ ७, २३, ४;
८, २२, ७; माश्री १, ७, ४,
४७फं^o; ६, १, १, २९फं^o; वाश्री
३, २, ७, ४२फं^o; ङवैश्री¹ ९,
१२ : १; १०, २२ : ६; ङहिश्री¹
४, ५, ६०; ९, ५, ५०; जैश्री २१ :
१६फं^o; द्राश्री ६, ४, १२फं^o;
लाश्री २, १२, १३फं^o; ङवैताश्री¹
३, १८; २४, ६; आपमं २, १, ८फं^o;
६, ६फं^o; शांगु १, १०, ९[?]; आमिगु
२, २, ५८^o; १९फं^o; ३, २, २; ४^o;
ङमागु¹ १, १, १७; २, २, २६;
ङवागु ४, २१^o; ५, ३२^o; जैगु १,
१ : १६; आपघ २, २२, ४^o; २३,
२^o; शुअ २, ४१९फं^o; चाअ ४:
८फं^o; या ७, २४फं^o; ११, ३६फं^o;
पा ६, ३, ९७^o; ७, ४, ४८^o; अपा
आश्री ७, ४, ४^oफं^o; अपा ३; शांश्री
६, ७, ८फं^o; आपश्री १२, ६, ४;

बौश्री ७, ४ : २; वैश्री १५, ८ : १;
अपाम् आश्री २, १२, २; ५; अपा-
म् आश्री ६, २०, २फं^o; १२;
ङअप्सु आश्री; आपश्री ८, १२, ६[?];
वैताश्री १०, २२^o; २३, २०^o; कौस्
३२, १४^o; १२७, ४^o.

आप- पाग ४, १, ४१^o;

-पः शुअ १, ५१४; -पम् शंघ
११६ : ६३^o; ऋअ २, ४, ५८;
७, ४७; ४९; १०, ९; १९; ३०; शुअ
१, ७२; ९३; ९७; ३१२; ३८२;
३९०; ४१४; ४२५; ५९८; २,
५४; -पानि शुअ १, ४७; ४१६;
२, १८७; -पे शुअ १, ४२२; ५९५.

आपो^o- पा ४, १,

४१; -पी शुअ १, १६२; २५७;
४०१; ४२१; ५९३^o; ६१३;
२, ४०; ९९; ४१६; ४१७;
-पीम् शुअ १, ४१७; २, ११५;
-प्यः ऋअ २, १, २३; १०, १७.

आप-(ग>)गा^o-

-गाः अप ५७, १, ६; -गाम् बृदे
६, २३.

१आप्य, प्या^o- -प्यम् बृदे

५, १७४; अअ १, ३३; २, १९; ४,

a) वैप १, परि. च द्र. ।

b) नाप. (छन्दोविशेष- [निसू. प्रमृ.]) । शिष्टं वैप १, परि. च द्र. ।

c) पाभे. वैप १, १०७७ h द्र. ।

d) सकृत् यनि. पाठः? अद्भ्यः इति शोधः (तु. सपा. तै १, १, ८, २ प्रमृ.) ।

e) अङ्गि इति पाठः? यनि. शोधः । f) पाभे. वैप १ परि. अपुः तै ३, ५, ६, १ टि. द्र. । g) सप्र. हिगु २, ३, १ अवाह् इति पाभे. ।

h) पाभे. वैप १, परि. अपुः मा ११, ३८ टि. द्र. । i) पाभे. वैप १ परि. अपुः मा २०, २२ टि. द्र. ।

j) पाभे. वैप २, ३खं. अपुः तैत्रा २, ७, १७, ३ टि. द्र. । k) सपा. कौगु १, ६, ७ आपः इति पाभे. ।

l) सप्र. अपः <> आपः इति पाभे. । m) सपा. आपमं २, २०, ३४ हविः इति पाभे. । n) सप्र. अपः <> आपः इति पाभे. ।

o) पाभे. वैप १ परि. अपुः ऋ १, १६४, ४७ टि. द्र. । p) पं१ इति (तु. स्क. ; वैतु. वें. सा (ऋ १०, ९५, १०) १अमम्- इति, दु. पूर्वेण समस्तमिति च) ।

q) ष१ रूपम् । r) सप्र. वैश्री ९, ३ : १८ हिश्री ५, ३, ४८ अवभृथम् इति पाभे. ।

s) पाभे. वैप १, १६९५ f द्र. । t) विप. (अर्धर्च- , सङ्ग- प्रमृ.) । साऽस्यदेवतीयः अण् प्र. (पा ४, २, २४) ।

u) आप- , स्थूण- इति पाका., अयःस्थूण- इति पागम. प्रमृ. । v) नाप. (२अपु-) । w) विप. (ऋच्- , विराज्- प्रमृ.) ।

x) अ^o इति पाठः? यनि. शोधः । y) तु. वैप १, ६६१ B; वैतु. ?PW. < अप-गा- [तु. निम्न-गा-] इति ।

z) विप., नाप. (देव-विशेष-) & ऋ. पाभे. च वैप १, परि. च द्र. ।

८; ६, ५१; १०, ५; १९, २;
-प्या अत्र १०, ९; -प्यानाम्
शांश्रौ १४, ७२, १; -प्ये विध
७८, २५; -प्येभ्यः आपश्रौ ८,
६, ७; बौश्रौ ५, १ : ३१; ५ :
२०; १० : ३१; ११ : २४;
१८ : १०; ६, १८ : ४; २०,
८ : ३९; २१, ४ : ११; १६ :
२०; २२, ११ : ९; २४, २६ :
१२; ३६ : १४; २५, ३ : १०;
भाश्रौ ८, २, ४; ६, ९; वैश्रौ ८,
१० : ११; अप ४३; १, २४;
-प्येषु बौश्रौ २४, २७ : २.

आप्य-नामधेय^२-

-याः बौश्रौ २४, २७ : २.

आप्य-निनयन^१- नम्
बौश्रौ २५, ८ : १२; -ने बौश्रौ
२०, ८ : ३९; २१, ४ : ११;
१६ : २०; २२, ११ : ९.

आप्यनिनयना-

(न-अ)न्त^२- न्तः बौश्रौ २४,
३६ : १४.

आप्य-लेप^१- पम्
आपश्रौ १, १४, १७; वैश्रौ १६,
२३ : ६; हिश्रौ ९, ५, ७; १२, ५,
१९.

आप्य-वारुण^८-

-णयोः अशां ६, २.

आप्या(प्य-अ)न्त^२-

-न्तः बौश्रौ २५, ३ : ९; -न्ताः
बौश्रौ २६, २१ : २.

अप^१- > ष-वत्- वान्
अप्रा ३, १, १८^१.

अप(ः)-आदि-शिखा (खा-
अ)न्त^१- > खान्तिक^१- -कम्
आमिष्ट २, ३, २ : १४.

अप(ः)-उपस्पर्शना(न-आ)-
दि^६- -दि काश्रौ १२, ४, २९.

अपां-व्रत^१- -तम् क्षुस् १,
३ : १०; १४.

अपां-होम- -मान् आपश्रौ
२०, ११, १७.

अपां-नपात्^१- -पात्
आश्रौ १२, ६, ९; आपश्रौ; निघ
५, ४; या ३, १६; १०, १८;
शुप्रा २, १९; -०पात् बौश्रौ ६,
९ : ८; ९; ७, ३ : १४; ८, १९ :
१८; ११, ६ : २३; १३, ३९ : ३;
भाश्रौ १०, १२, १७; माश्रौ २, १,
३, १६; ३, २, १६; वाश्रौ ३, १, १,
२७; ३, २, ८; वैश्रौ १७, ११ : ५;
हिश्रौ १३, १, २८; ५, ११; माष्ट
१, ५, ४; अप्राय ६, २; या १०,
१९.

अपां-नप्त^१- आश्रौ १२, ६,
९^१; आपश्रौ १८, २०, ३^१;
बौश्रौ १२, १६ : २३^१; वाश्रौ
३, ३, ४, १^१; हिश्रौ १३, ६,
४२^१; माष्ट १, ५, २^१; कौस्
१२७, २.

अपांन्प्रिय^१- पा ४, २,
२७.

अपांन्प्रीय^१- पा ४, २,
२८.

अपां-न्ययन- -नात् आपश्रौ
१८, ९, १६.

अपाम् (अयन^१)- -नम् लाश्रौ
१०, १३, ११.

अपां-पति- -तिः वाश्रौ ३,
३, २, १२; वैश्रौ १८, १८ : २;
हिश्रौ ११, ७, ४२; शुप्रा ३, १५;
-०ते आपश्रौ ६, २०, २; वाश्रौ
१, ५, ४, १९; हिश्रौ ६, ६, २४.

अपांपती(य>)या^६-

-याः बौश्रौ १२, ८ : ९; २६,
२ : १.

अपो-नप्त^१- > अपोन्प्रिय-
पा ४, २, २७; -यः काश्रौ २३,
४, १४^१; २४, ६, ६; -यम् शांश्रौ
१३, २९, १२; -यस्य शांश्रौ
१३, २९, १३.

अपोन्प्रीय, या- पा ४,
२, २८; -यः माश्रौ ५, २, १,
२२; -यम् आपश्रौ २२, २१, २;
२३, १३, २; बौश्रौ १३, ३३ : ५;
२६, ६ : १५^१; २१ : ६; माश्रौ
५, २, १, १९; हिश्रौ १७, ७, २९;
१८, ४, ३७; २२, ५, १४; द्राश्रौ
२, ४, १८; लाश्रौ १, ८, १४;
वैताश्रौ १६, १०; ऋश्र २, २,
३५; १०, ३०; भाशि १२; -यस्य
माश्रौ ५, २, १, २९; -या लाश्रौ
१०, १८, २; साश्र १, ६०८;
-याः आश्रौ ५, १, १; -याणि
अश्र १, ४; -याम् लाश्रौ १०,
१७, १.

अपो(पः-अ)शन^१- > ण-
काल- -ले आमिष्ट २, ६, ८ :
४२.

- a) विप. । बस. । b) चस. । c) द्रस. । d) वैप १, परि. च द्र. । e) विप. । बस. > कस. > बस. ।
f) स्वार्थे ठन् प्र. उसं. (पा ५, २, ११५) । g) विप. (कर्मन्-) । षस. > बस. । अपः इति ष१ । h) नाप.
(साम-विशेष-) । i) आपां इति BI. पाठः? यनि. शोभः । j) नाप. (Lज्योति-ष्टोम-] संबत्सर-) ।
k) विप. (२अप्-) । तत्रमधीयश् ङ् > ईयः प्र. उसं. (पा ४, ४, ११७) । l) <अपोनपात्- इति कर्कः? ।
m) आपां इति पाठः? यनि. शोभः (तु. तैत्रा २, ३, १२, २) । n) =आचमन- । भाप. । पूष. ष१ ।

अप्-तृण-सूर्य^१ - > लौ^२ -
-र्यम् ऋञ्ज २, १, १९१.
अप्-पवित्र^३ - -त्रम् वैध २,
८, १; ३, ८, २; -त्रेण वैध ३,
६, ४.
अप्-पूर्व^४ - -र्वम् आण्ड ४, ७,
१३; गौध ५, १९.
अप्य^५ - पा ४, ४, १३४;
-प्यः निसू ७, ८ : ३४५;
-ऋष्यम् या ११, ३९६; -प्या
या ११, ३९५.
अप्-शब्द^६ - -ब्दे माशि १२,
१.
अप्-सारि(न >)णी^७ - -णी
या ५, १३.
अप्सु^८
अप्सव्य^९ - , अप्सु-चर^{१०} -
पावा ६, ३, १.
अप्सु-ज^{११} - पावा ६, ३,
१; -जम् या १०, ४४.
अप्सु-जित्^{१२} - -जित्
आश्रौ ७, १२, १९५.
अप्सु-दीक्षा^{१३} - -क्षा
काश्रौ ७, २, ५; वाश्रौ ३, ३, ४,
११; -क्षायं वीश्रौ २५, ६ : १.
अप्सु-दीक्षा-प्रभृति-
-ति वीश्रौ २९, ११ : १३.
अप्सु-मत्^{१४} - पावा ६, ३,
१; -मतः आमिण्ड २, ६, २ : १३;
-मते आश्रौ ३, १३, ८; शाश्रौ
३, १३; ७; काश्रौ २५, ४, ३३;

आपश्रौ ५, २६, ४; ९, ३, २२;
भाश्रौ ९, ५, १५; हिश्रौ ३, ६,
४; १५, १, ७२; आमिण्ड २, ६,
२ : १६५; कप्र २, ९, १४;
अप्राय २, ७५; वौध २, ५, ९;
-मन्तौ आश्रौ २, १३, ३; ६, १३,
४; शाश्रौ ८, ११, ३; आपश्रौ ८,
८, ६; ७; माश्रौ ५, १, ३, २५;
वैश्रौ १६, २५ : ६; हिश्रौ ९,
५, ३०.
अप्सुमती^{१५} - -तीः
आपश्रौ १६, ७, ४; माश्रौ ६, १,
३, ३; वैश्रौ १८, ५ : ८; हिश्रौ ११,
२, २; -तीभ्याम् माश्रौ ६, २,
६, १७; वाश्रौ २, २, ५, ५; -तीम्
आपश्रौ ९, ३, २३; वैश्रौ २०,
९ : १; हिश्रौ १५, १, ७३.
अप्सु-मति- , अप्सु-
योनि- पावा ६, ३, १.
अप्सु-पद्^{१६} - -ऋषत्
आपश्रौ १७, ५, ११; वीश्रौ १०,
४५ : ३४; वैश्रौ १९, ५ : २४;
हिश्रौ १२, २, ८; -पदः वीश्रौ १०,
४५ : ३४; शोध १०३^१; शौच २,
१००५; -ऋषदम् आपश्रौ ५,
१०, ४; माश्रौ १, ५, २, १४;
वाश्रौ १, ४, २, ५; हिश्रौ ३, ३,
३६; शोध १०, ३; -ऋषदे वीश्रौ
१०, ५० : १४; पाण्ड ३, १५, ८;
भाण्ड २, ३० : ५; ६; हिण्ड १,
१६, १२^२.

अप्सु-वो, सो^{१७}म^१ -
-मः हिश्रौ १०, ५, १६; -माः
द्राश्रौ ६, ३, २२; लाश्रौ २, ११,
१६; -मान्^३ शाश्रौ ८, ७, २१;
जैश्रौ २० : ९.
अप्सुवोमा(म-अ)
न्त^{१८} - -न्तम् द्राश्रौ ६, ४, १३;
लाश्रौ २, १२, १४; -न्ताः
वीश्रौ २२, २१ : २; २३, १३;
२; २६, २ : १०.
अप्सुसोमा(म-आ)-
ख्य^{१९} - -ख्यान जैश्रौका २००.
अब्-अर्थ^{२०} - -र्थम् आश्रौ ६,
९, १; -र्थे आश्रौ ४, ५, ५.
अब्-ई (<इ)ष्टका^{२१} - -काः
वीश्रौ १९, १० : १; ६.
अब्-उ(क्त >)क्ता^{२२} - -क्ताः
निसू ४, ३ : ९; ६, ५ : ६; जैण्ड
१, १७ : ५.
अब्-घट^{२३} - -टान् वौध २,
३, ७.
अब्-ज^{२४} - पाण्ड ५, २, १३५;
-जम् विध २३, ३; -ब्जानाम्
अप ६७, २, १; -ब्जानि अशा
१२, ४; -ब्जे वैश्रौ १८, २० :
५२५.
अब्जि(न >)नी- पा
५, २, १३५.
ऋ-ज^{२५} - -जाः आपश्रौ
१९, २७, ५; वीश्रौ १३, ३९ :
१६; हिश्रौ २२, ६, १७;

a) द्रस. । b) विप. (सूक्त-) । सास्यदेवतीय अणि प्र. । अन्त्यपदवृद्धिः (तु. षड्गुण-शिष्यः) ।
c) मलो. कस. । d) विप. । बस. । e) वैप. १, परि. च द्र. । f) कस. । g) विप. (अप्सरस्-) ।
उस. । h) सप्त सत् सुब्-अलुक्कया उत्तरत्र पूष. द्र. । i) नाप. (संस्कार-विशेष-) । j) नाप. (इष्टका-
विशेष-) । k) वैकल्पिकत्वस्य शाश्रौ. अभावः (पा ८, ३, १०६) । l) नाप. (चमस-विशेष-) । सस. ।
म) ँप्सु सो^३ इति पाठः ? यनि. शोषः (तु. सप्र. माश ४, ४, ३, १३; C. च) । n) नाप. (इष्टका-विशेष-) ।
कस. । o) विप. (अब्जान्ना उक्ता-] शकरी-) । कस. । p) षस. वा मलो. कस. वा । q) नाप. (कमल-
शकरी-] शकरी-) । कस. ।

आमिष्ट २, ५, १० : ३४; या १४, २९; -ब्जाम् ऋअ २, ७, ३४; वृदे ५, १६५; या १०, ४४०.

अब्द^a- पाठ ४, ९८; -कब्दः काश्रौ १७, ३, २; आपश्रौ १६, १७, ७; १९, ११, ६; वौश्रौ १०, २४ : १७; १९, १ : २८; माश्रौ ६, १, ५, ३३; वाश्रौ २, १, ४, ३७; वैश्रौ १८, १४ : २२; हिश्रौ ११, ६, १६; २३, २, ६; वौध २, १, ६१५; शुप्रा ४, ८५; वेज्यो २८५; ३१५; -ब्दम् शंघ ४०५; विध ५२, ५; ५३, १; गौध २१, ३; -ब्दस्य वौध ४, ५, २६; -ब्दाः वाध ६, ५; -ब्दान् अप २, ५, २; -ब्दानि विध ५२, ३; -ब्दे कप्र २, ६, ८; विध २७, १२, १५; -ब्देन विध २८, ५०.

आब्दिक्^b- -के शंघ ४२२.

अब्द-मध्य^c- -ध्ये अप ७०^f, २३, ११.

अब्दा (ब्-आ) द्वि^d- -दयः पाठ ४, ९८.

अब्दा(ब्द-अ)पन (न-ऋ) नुं-पभा(अ-अ)ह^e- -हान् वौध ४, ८, ६.

अब्दा(ब्द-अ)र्ध^e- -र्धे आउथो १२, ११.

अब्-देवता- >°त्य, त्या- -त्यः साअ २, ११९३; -त्या साअ १, १; २, ८६२; -त्ये अअ ६, २४.

अब्-दैवत^d- -तः गोगृ १, ४, ९; वृदे ८, ५०; -तम् अअ ७, १०७; ११२.

अब्-विन्दु^e- -न्दुः वौध १, ५, ५९.

अब्-भक्ष^f- -क्षः जैगृ २, ८ : २४; वाध ११, ७७ : २३, ३८; ३९; २४, ३; वौध २, १, ६७; ३, ९, १७; गौध २६, १९; -क्षम् शंघ ४१५.

अब्-अग्रिण^g- -णम् वौगृ ३, ५, ६; ९; -णे वौगृ ३, ६, १.

अब्-अग्रिण-देश- -शे वौगृ २, ८, १४.

?अब्-अग्रियादिभु^h आमिष्ट २, ६, ४ : २३.

?अब्-अग्रियावकाशⁱ- -शे वौगृ २, ८, १३.

अब्-मात्र^j- -त्रेण विध ६४, ४१.

अब्-लिङ्ग, ज्ञा^k- -ङ्गम्^k वाध २८, १३; विध ५६, १६; -ज्ञाः शंघ १०५^k; -ज्ञामिः आमिष्ट ३, १०, २ : १२; वौगृ ३, ३, ५; ९, ३; वौषि २, ८, १०; आपध १, २३, ७; वौध २, ४, २; १०, ३२; ३, २, ५; ४, २, १३; द्विध

१, ७, १८; गौध २५, १०.

अब्-पाग^l- पाग ५, २, ३६; १२७^l; ३, १०३; -अः आपश्रौ १९, १७, १६; १७; वौश्रौ; -अम् वौश्रौ १९, १० : १९^l; वाधूश्रौ ४, ६६ : ३; ७४ : ४; सु २२, २; अप ४८, १००; आपध १, ११, ३१^m; अअ ९, ७^l; निध १, १०; -आणि काश्रौ ४, ५, १८; वाधूश्रौ ४, ११७ : ३; अप ६१, १, १२; ७२, ३, १४; या २, २१; -आय शुप्रा ५, ३४^l; -अ्रे आपश्रौ १५, २१, ८; भाश्रौ ११, २२, ११; कौगृ ३, ९, २४; शांगृ ४, ७, २९; द्विध १, ३, ८१^m; या ५, ५^l; -अ्रेण कागृ ९, १२; मागृ १, ४, १०; वागृ ८, १०; जैगृ १, १५ : ३; कौषु १४१, ४२; अप ६५, १, ८; -अः अप ६५, १, १०.

अब्-पा ५, २, १२७.

अब्-लिह- पा ३, २, ३०.

अब्-कय- पा ३, २, ४२.

अब्-चारⁿ- -रैः अप ६८, ३, १२.

अब्-च्छाया^o- -याम् आपश्रौ ११, २०, ८^o; -यायाम् वौश्रौ ९, २० : १७; वौगृ ३, ४, ३४.

अब्-जनन^p- -नः अप ६५, १, ३.

a) वैप १, परि. च द्र. b) विप. (काल-)। तत्रमवीयप ठञ् प्र. (पा ४, ३, ११)। c) पत्ते। d) विप.। वस.। e) हस.। f) विप., नाप. (व्रत-विशेष-)। वय.। g) = अम्भृण-। नाप. (मणिक-उद-धानी-)। उत. उप. ✓भृ + अधिकरणे हुनकू प्र.। h) पाठः? अदिभ्र (ए>)गो- L तु. घटी- J > -ण्याम्, दिभ्रु इति द्विपदः शोधः। अदिभ्र इति पाठः? यनि. शोधः। i) पाठः? °ण्याः अब् इत्यत्र संघिरार्थः। शिष्टं ङ टि. द्र.। j) स्वार्थे मात्रच् प्र. उतं. (पा ५, २, ३७)। k) सपा. °ङ्गम् <> °ज्ञाः इति पामे.। l) पामे. पृ ५३ m द्र.। m) सप्र. अब्रम् <> अब्रे इति पामे.। n) नाप.। उत. वा बस. वा पूष. = व्योमन्। o) अभिच्छा इति पाठः? यनि. शोधः (तु. रुद्रततः [द्विश्रौ ७, ८, ५१] C. च)। p) विप. (पुरोवात-)। उत., यद्वा बस. उप. भाप.।

अभ्र-जाला (ल-अ) व-
 नाद^a - देपु अप ६५, १, ६.
 अभ्र-दर्शन^b - ने पागृ २,
 ११, ३; गौघ १६, १०; काशु ७,
 १८.
 अभ्र-परिघा (घ-आ)
 दि^c - न्दीनाम् अप ६४, ५, ७.
 अभ्र-पातन^d - नम् अप
 ६४, ५, ९.
 †अभ्र-पुष्^e - प्रुषः ऋअ
 २, १०, ७७; वृदे ७, ११६.
 अभ्र-मध्य^f - ध्ये माशि
 ९, ६.
 अभ्र-रजस्^g - जः अप
 ६३, १, ५.
 अभ्र-राजि-प्रादुर्भाव^h -
 वैः अप ६५, २, १०.
 अभ्र-वर्णⁱ - णेन अप
 ६३, ५, २.
 अभ्र-विकार^j - रेपु अप
 ६१, १, २२.
 अभ्र-विनाशन^k - नः अप
 ६५, १, ३.
 †अभ्र-सनि^l - निः वौश्री
 १०, ४५ : २४.
 अभ्रा (भ्र-आ) कृति^m -
 -तिपु अप ६२, ३, ३.
 अभ्रा (भ्र-अ) नध्यायⁿ -
 -यः गोगृ ३, १६^o; द्रागृ ३, २,

२५.
 ✓अभ्राय पा ३, १, १७.
 अभ्रित- पा ५, २, ३६.
 अभ्रिय, या- पा ४, ४,
 ११८; -०ये अअ २, २[†].
 अरुय- पाग ५, ३, १०३.
 आप्-आपः †आश्री १, २, १; ३,
 ६, २७^b; ११, ७^c; ५, १, १०^d;
 आपश्री^e १, १४, ३; ९, ३, १२; ५,
 ६; १०, १६; वौश्री १, ८ : २२^f;
 १०, ३ : १^g; १८ : ३; १४, २३ :
 १४^h; १८, ४६ : १४ⁱ; माश्री २,
 ७, ४^j; माश्री ३, २, २^k; वैश्री
 २१, १५ : ८^l; हिश्री १३, ५,
 १४; २७^m; १५, १, ६ⁿ; २, ५^o; ७,
 १०^k; आपमं २, १४, ११^q-
 १४^r; कौगृ १, ४, ९^s; ६, ७^t;
 आम्रिगृ १, ५, ३; ६[†]; कागृ ६, २^u;
 वागृ ४, ३^v; ८; ५, २८^w; वैगृ २,
 १३, १०^m; हिगृ २, ६, ५ⁿ; कप्र
 ३, ८, ४^o; कौम् ६१, ३६^p; अप १,
 ४०, ३^q; ६२, १, १^o; अशां ६,
 ७^r; १०, ३^s; वाध २०, २१^t; २१,
 २१^u; २७, १२; हिध २, ५,
 १३४^v; १५७^w; अअ ३, १२^x; १०,
 २^y; शैशि ९९^z; १०५^{aa}; पा ६,
 ४, ११; ०आपः आश्री ८, १३,
 ७XX; आपो ३ आश्री ७, ११, ७.
 आपः-पूर्व^{ab} - वः तैप्रा ११,

८.
 आपो-देवत^a - ते आश्री ५,
 १०, १७.
 आपो-रेवती^b - तीम् शांश्री
 ६, ३, ११; ९, २०, ७.
 †आपो-हिरण्य-पवमान^c -
 -नैः वैगृ १, ३ : १०; ७ : १०;
 ३, १३ : ६; ४, १० : १८; वैध
 २, १, ९.
 आपोहिष्ठा^d - छाभिः वाध
 १५, २०.
 †आपोहिष्ठी^e - छीभिः
 सुध २६.
 आपोहिष्ठीय, या^f - यम्
 माश्री १, ३, ३, १८; -याः शांश्री
 ८, ६, ७; ७, २०; लाश्री २, १०,
 २०; -यानाम् शांश्री ८, ७, १२;
 १४, ५, ७; -याभिः शांश्री ४,
 ११, ६; २१, ५; १५, ११, १६;
 २०, १८, ७; द्राश्री ९, २, ६;
 १२, ३, ५; लाश्री ३, ६, ६; ४,
 ११, ७; कौगृ १, ८, २९; ३, २,
 १; ४, १, ३; शांश्री १, १४, ८;
 कागृ २४, ११; ५१, १२; ६०,
 ६; मागृ १, १, २४; ६, ४; ११,
 २६; २, २, २७; वागृ १, ३७;
 हिधि १८ : २०; जैगृ १, १३ :
 १; २१ : ३१; सुधप ८६ : ७;
 -याभ्यः वौश्री २१, २३; २०;

a) विप. (जल-)। पस. > उस.। b) पस.। c) विप.। कस. > वस.। d) वैप १, परि. चद्र.। e) विप. (पुरोवात-)। उम.। f) मलो. कस.। g) 'आना' इति पाठः? (तु. भाष्यकारः आ अनध्यायः इति)। h) छि३। पाभे. वैप १ परि. अपः मा २०, २२ टि. द्र.। i) छि३। j) द्वि३। पाभे. वैप १ परि. अपः मा ११, ३८ टि. द्र.। k) द्वि३। पाभे. वैप १ परि. अपः मै १, ४, ४ टि. द्र.। l) द्वि३। रुपा. शांगृ १, १०, ९ अपः इति पाभे.। m) अपः इति पाठः? यनि. शोधः (तु. तै १, २, १, १)। n) द्वि३। पाभे. पृ २३९। द्र. (वैतु. ? Böht [ZDMG ५२, ८७] आपः इति शोधुक इव)। o) नाप. (भूकम्प-विशेष-)। p) पाभे. पृ २३९। द्र.। q) विप.। बस.। r) विप. ([आपो रेवतीः ऋ १०, ३०, १२ इति] ऋग्-विशेष-)। मत्वर्थीयस्य छस्य लुक् उंसं. (पा ५, २, ६०)। s) विप. [(आपो हि ष्ठा [ऋ १०, ९, १] हिरण्यवर्णाः [श्री १, ३३, १] पवमानः [मै ३, ११, १०] इति प्रतीकवत्-] मन्त्र-]। द्रस.। t) विप.। व्यु.। र टि. दिशा द्र.। u) प्राति.। ष्ठीया- (तु. उत्तरं प्राति.) > यनि., यद्वा गौरादित्वम् उंसं.। v) मत्वर्थे छ > ईयः प्र. (पा ५, २, ५९)।

-याम् द्राश्रौ ६, २, २१; -येन वाश्रौ १, ६, ६, १३; कौघ ३, १, २; शांघ ३, १, ४; वाघ १४, २४.

†अपस्- पाठ ४, २०८; -पः आपश्रौ १९, १७, १३; वौश्रौ ३, ३० : १३; आपमं २, ११, १०; आमिघ २, १, ५ : १४; अप्राय १, ३; अप ४८, ६१; या ४, १७; ७, २७; ११, ३१; ऋप्रा १, ९०; २, ४२; ऋन ३, २, ८; -पसः आश्रौ ५, १०, २८; तैप्रा ८, २४; -पांसि आपश्रौ १६, १२, १; हिश्रौ ११, ४, १३.

✓अपस्य^a > अपस्यु^b -स्युः माघ १, २१, १०†^b.

†अपस्यु^a -स्युवः वौश्रौ १२, ९ : ९; वैताश्रौ ३४, ७.
†अपस्-व (न > र >) शी^c -रीः^d आपश्रौ ४, ५, ५; भाश्रौ ४, ७, ३; हिश्रौ ६, २, ७.

†अपस्- -पसः आपश्रौ १४, १२, ४; वौश्रौ ६, १७ : १९; माश्रौ ५, २, १४, १०; हिश्रौ १०, ६, ९; काघ ४१, ५; या ३, २१; -पसाम् माघ २, ८, ४^e.

†अपस्-त (म >) मा- मा माघ २, ८, ४.

‡अपस्- > अप (स्य >) स्या^f -स्याः काश्रौ १७, ६, २; ८, १३; २१; आपश्रौ १६, २८, ४; १७, १, ५; वौश्रौ १०, १९ : २; ११, १९;

३५ : १; १९, १ : १; ८; माश्रौ ६, १, ८, ४; २, १, ५; ६; वाश्रौ २, १, ७, १६; २, १, ५; वैश्रौ १८, २० : १; १९, २ : ८; हिश्रौ ११, ८, १; १२, १, ५; वौपि १, १५ : ११; भाशि ११२†; -स्याभिः आमिघ ३, ६, ४ : १२; वौपि १, १३ : १२; -स्यासु वाश्रौ २, २, १, ५.

अपस्या(स्या-आ)यतन^h -ने वौश्रौ १७, २८ : ५.

अप्तु^a - पाठ १, ७५; -प्तुः काश्रौ ८, ७, २; वौश्रौ ६, ३० : १७; ८, ९ : २३; माश्रौ २, २, ४, २४; वैश्रौ १४, १४ : १३; हिश्रौ ७, ८, १७; -प्तुभिः माश्रौ १, ३, ४, १५†ⁱ; -प्तुम् वौश्रौ ६, ३० : १७; ७, ३ : २३; १४, ७ : १०; २०; ३०; ३३; ३५; २१, १७ : १^j; -प्तोः वौश्रौ १८, १५ : १४; २१, १७ : १.

अप्तु-देवता- > ष्व (त्य- >)-त्या- -त्या शुभ्र १, ३५५.

अप्तोर्-यामन्^l -मः आश्रौ ६, ११, १; १०, १०, ९; काश्रौ १०, ९, २७; २०, ८, १३; २१, २, ४; २३, १, १९; २५, १३, १४; आपश्रौ १४, १, १, ४, १२; २०, २५, १२; २२, २७, २२; वौश्रौ २४, ४ : ९; १२; वाश्रुश्रौ ४, ९८ : १९; वैश्रौ २१, ६ : १^k; हिश्रौ ९, ७, १; १४, ६, २३; १५, ५, २०; २३, ४, ४०; द्राश्रौ १३, ४, १७^l; लाश्रौ

५, ४, २४; गौघ ८, १८; -मम् वौश्रौ १४, २० : ११; वाधुश्रौ ३, १९ : २४; हिश्रौ १५, ५, २०; -मस्य वौश्रौ १८, १५ : १५; २४, ४ : ११; निस् ८, २ : २६; -मान् वौश्रौ १४, २० : १२; -मे काश्रौ २०, ८, १४; आपश्रौ १४, १०, ४; वैश्रौ १७, ६ : १०; ११; हिश्रौ १०, ८, ४७; निस् ८, ११ : २७; -मेण आश्रौ ९, ११, १; आपश्रौ १४, १, २; २२, १३, १९; वौश्रौ १८, १५ : १; वैश्रौ १७, ५ : ५; हिश्रौ ९, ७, ५६; १७, ५, ३७.

अप्तोर्यामन्व- -त्वम् वौश्रौ १८, १५ : १५.

अप्तोर्याम-राजसूय^m -वर्जम् काश्रौ २४, ७, १६.

अप्तोर-यामन्ⁿ -मा माश्रौ २, ५, ३, २७; वैताश्रौ ३८, ११; -ग्नि काश्रौ १६६; माश्रौ २, ३, २, २८; ५, ३, १८; ५, २, १६, १५; लाश्रौ ९, ५, १३; वैताश्रौ ७, १८; १९, १७.

अप्- > अप-वान्^o -†वाना अप ४८, ८१; निघ २, ४.

आप्तयान^p -०न आश्रौ १२, १०, ६-८; आपश्रौ २४, ५, १२; १५; वौश्रौ ३:१६; ४:४; ५:३; हिश्रौ २१, ३, ७; वैध ४, २, २; ३.

अप्-वान- > अप्तवान-वत्^q आपश्रौ २४, ५, १२; १५;

a) वैप १, परि. च द्र. । b) पाभे. वैप २, ३खं. अप्: तैव्रा २, ७, १७, ३ टि. द्र. । c) विप. (२अप्-)

d) सपा. खि ३, १३, १ शौ ६, २३, १ तदपसः इति विशिष्टः पाभे. । e) ष्सा इति पाठः? यनि शोधः(तु. काठ १५, १३; ३५, १२) f) <२अप्-। वैप १ द्र. । g) नाप. (इष्टका-विशेष-) । h) षस. । i) पाभे. वैप १ परि. अक्तम् मा २, १६ टि. द्र. । j) वैप २, ३खं. द्र. । k) द्वस. । l) =अप्तोर्याम- । उप. ✓यम् + कनिष् प्र. उरं. (पाठ १, १५६) । m) नाप. (बाहु-). व्यु. ? । वैप १, २७१ d, f द्र. । n) व्यप. (ऋषि-विशेष-) । वैप १ द्र. । o) वैप १, २७१ h, i द्र. ।

बौध् १३, ३९ : १४; बौध्प्र ३ :
१७; ४ : ५; ५ : ४; हिथ्रौ २१,
३, ७^३; वैध ४, २, २^३; ३.
अमस^१- पाठ ४, २०८; -फंमः अप
४८, ६१; ८७; निघ २, १; २; ३,
७; या ३, ११०.
फंअमस-व(त >)ती^२- तीम्
काथ्रौ २६, ४, ११; आपथ्रौ १५,
८, १३; बौध् ९, ८ : १३; भाथ्रौ
११, ८, १७; माथ्रौ ४, २, ३५;
वैथ्रौ १३, ९ : १३; हिथ्रौ २४,
३, ६; शुभ ४, १८.
अजस^३- पाठ ४, २०९.
अप माण २, ७, ५^१; अप ३२, १,
१५^१; अथ १२, २०^१; या
१, ३^६; ऋप्रा १२, २०^६; १५,
१७^६; शुप्रा ६, २४^६; पा १, ४,
८८; २, १, १२; ३, १०; पाग १,
४, ५८.
अप-पात् पा, पाया ६, २, १८६.
१अप-सव्य^४- -व्याभ्याम् शौच २,
९५.
अपकर^५-> अपकर-क-पा ४, ३, ३२.
आपकर- पा ४, ३, ३३; पावा १, ३,
१०.
अप✓कल्>अप-कालयितव्य-
-व्यः या ३, १८.
अप-काम^६- -मम् या ९, १७^१.
अप-काल^७-> अपकाल-होम^१-
-मम् आमिण् १, ७, ३ : ६.
अप-कुक्षि- पा ६, २, १८७.
अप✓कृ, अप^२(करत्), अप(करतः)
आपथ्रौ १४, २९, १^१.

अप✓कृत् (छिदने), अपकृन्तामि कौस्
४४, ३१^१.
अप-कृत्य बौपि १, ५ : १२; कौस्
४४, ३१.
अप✓कृष्, अपकर्षति काठथ्रौ १;
बौध् ९, ७ : २४; कौस् ६१,
३३; ६३, ५; वाध ५, ५; २८, ४;
बौध २, २, ५७; अपकर्षन्ति
आपथ्रौ ८, १६, १६; अपकर्षेत
विध ७१, ५५.
अपकृत्यते मीस् ३, ४, १६; अप-
कृत्यते मीस् २, १, १४; ३, ३, १५.
अप-कर्ष- -पं: मीस् १, २, २४;
३, २, २५; -पं मीस् ५, १, २४.
अपकर्ष-विज्ञान^१- -नात् पावा
३, ४, १०२.
अप-कृष्ट- -ष्टा: काथ्रौसं ३० : २.
अप-कृत्य काथ्रौ ९, ५, ११; १०,
१, १८; १७, १२, ११; वैथ्रौ.
अप✓कम्, अपकामति बौध् १४, १;
१२; कौस्; अप- कामति बौध्
१४, १:१०; अपकामन्ति आपथ्रौ
१३, ७, १३; बौध् १४, २४:३८;
२८ : १; अप- कामन्ति भाशि
ददि; अपकामामि कौस् ४९, ७;
९^१; अपकामताम् वाधुथ्रौ ४,
१९ : १२:१५: १९; २२; २५;
अपकामेत् अप १, १८-२०, २;
गौपि २, २, ६; गौध २२, ४.
अपचक्रमे वृदे ७, १; अपचकाम
वृदे ७, ६२; फंअपकमीत् आपथ्रौ
२, १८, ९; बौध् १, १६ : १३;
भाथ्रौ २, १७, ९; हिथ्रौ २, २,

२१; अप- अकमिष्टाम् वाधुथ्रौ
४, १९ : १४; १७; २१; २४; २७.
अप-क्रम- -मात् वाधुथ्रौ ४, ४८ :
५; ७.
अप-क्रमण- -णात् वृदे ५, १७.
अप-क्रमम् वैगृ ५, २ : १८.
अप-क्रम्य आपथ्रौ २, ५, ८; बौध्
२५, १:२५; वृदे ६, १०९; ७, ६२.
अप-क्रान्त,न्ता- -न्तः शाथ्रौ १२,
२३, २; -न्ताम् वृदे ७, ३.
अप-कामत्- -मन् कौस् ५५, १६^१;
विध ३, ३१; अथ ७, १०५^१.
अपकामन्ती- -न्ती कौस् ४, १४.
अ-पका(क-आ)शिन्^६- -शी आमिण्
३, ४, ४ : २७.
अ-पक्ष^१- -क्षः वाधुथ्रौ ४, ८५ : १;
बोशु ५:१३; -क्षा: निस् ४,
११ : ३०; ३२^२.
अ-पक्ष-पुच्छ^२- -च्छः बोशु ५:१६;
-च्छान् बोशु ५ : १०.
अप-क्षान- अप✓क्षे द्र.
?अपक्षामम्^३ हिथ्रौ ७, २, ८६.
अप-क्षायत्-, -यम् अप✓क्षे द्र.
अप✓क्षि(क्षये),अपक्षीयते या १, २^२.
अप-क्षीयमाण- -णः कौस् १३९,
१३; -णम् लाथ्रौ १०, १६, २;
५; -णा: आगृ ४, ६, १.
अपक्षीयमाण-पक्ष^०- -क्षम् शाथ्रौ
१३, २९, ९; या १४, ८; -क्षान्
या १४, ८; -क्षे बौध् २४,
१६ : १०; १३.
अपक्षित->आपक्षिति^४- (>आप-
क्षित्या- पा.)पाग ४, १, ८०.

a) वैप १, परि च द्र. । b) =रूप-। c) शोधार्थं वैप १ परि. ऋ १, ११३, १६ टि. द्र. । d) वैप
१, २७२ ऋ द्र. । e) स्वात्र. । f) द्रस. । g) नाप. (देश-विशेष-). व्यु. ? । h) प्रास. । i) सस. ।
j) षस. । k) विप. । तस.>उस. । l) विप. । वस. । m) विप. । वस. उप. द्रस. । n) पाठः? अप-
क्षाय-> -यम् (क्रिवि.) इति शोधः । अपगतः क्षायः (क्षयः) इति कृत्वा प्रास. (अ-नाश-). o) =कृष्णपक्ष-
कस. । p) तु. पागम. । व्यप. (ऋषि-विशेष-). व्यु. ? ।

अ-पक्षिन्^a -क्षी अप २, ५, १.

अप√क्षिप्, अपक्षिपति काश्रौ १६,
३, २; वाधुश्रौ ४, ६० : १०.

अप-क्षिप(त >) न्ती- न्त्याम् कौस
३७, १२.

आ-क्षीयमाण- अप√क्षि द्र.

अप√क्षै, अपक्षायति वौश्रौ २९,
१० : ६; अपक्षायत् आपश्रौ ९,
१, १७; १८; वौश्रौ २९, १० : ७;
९; माश्रौ ९, १, १७; २, १; माश्रौ
३, ४, १; वैश्रौ २०, २ : १०.

अप-क्षाण^b -णानि वैश्रौ २०, १७ :
६९.

अप-क्षायत् -यन्तम् वैश्रौ २०, २ :
७; हिश्रौ १५, १, १८; १९.

अप-क्षायम् हिश्रौ ७, २, ८६^d.

अप√गच्छ, अपगच्छति वैताश्रौ ८,
१६१; †अपगच्छतात् आमिगृ २,
६, २ : १३; वौध २, ५, ६.
अप^e...गहि मागृ २, ७, ११^f.

अप-गत- -तम् या ४, २५.

अपगत-अय-काम-क्रोध-लोभ-
मोह-मद-मात्सर्य^g -र्यः आमिगृ
२, ७, ११ : १५.

अपगत-भास^h -सम् या ६, ३६.

अप-गम- -माय ऋश्र २, १०, ५९.

अप-गामिन् -मिनः अप १, ७, ४.

अप√गल्भ > अप-गल्भⁱ -ल्भः
वौश्रौ १७, ५० : १५^f.

†अप√गा, अपगाः शाश्रौ १५, २४,

१^३; वृदे ४, ७३; अपगात शाश्रौ
२, ११, ६; वौश्रौ ३, ८ : २२.

?अपगाया^j वैताश्रौ १७, ४^f.

अप√गुर, अपगुरेत वौध २, १, ७.

अप-गारम्ऽअप-गारम्, अप-गोरम्-
ऽअप-गोरम् पा ६, १, ५३.

अप-गूर्ण- -र्णः या ३, ५.

अप-गूर्ण आश्रौ ९, ७, ९; †आपश्रौ
२४, १४, ४; ५; †हिश्रौ २१, २,
४३; ४४; वौध २, १, ७.

†अप√गु > गूह, अपगूहामि आपमं
२, ७, १२; आमिगृ १, ३, ३ : ४;
अपगूह या ५, ८; अपगूहन् या
१२, १०^l.

अप√गृह्य > अप-गृह्य काश्रौ ९, ६,
७; १०, ४, ४.

अप-गृह्य- -ह्यः शांगृ ५, २, ४.

अप√गृ (स्तुतौ) > अप-गर^k -रः
वाश्रौ ३, २, ५, ३३; ३४; द्राश्रौ
११, ३, १; लाश्रौ ४, ३, २.

अप-ग्राम^l -माः शाश्रौ १६, १८, २१.

अप-घन- , घनी- अप√हन द्र.

†अपघाटिला^m -लाःⁿ द्राश्रौ ११,
२, ८; लाश्रौ ४, २, ७; -लाम्
द्राश्रौ ११, २, ९; लाश्रौ ४, २, ८.

अप-घात- °घत्- अप√हन द्र.

अ-पच^o -चः, -चस्य शंघ ४६१.

अ-पचमानक^p -काः वौध ३, ३, २; ९.

अप-चय- अप√चि (चयने) द्र.

अप√चर > अप-चरत्- -रत्सु वाध

१९, ८.

अप-चार- -रे आपश्रौ ६, ७, २; गौध
२५, १२.

अप-चारिन्- पा ३, २, १४२.

अपचारिणी- -णी वाध १९,
४४; शंघ ३१७.

अप√चि (पूजायाम्)^q

अपचित, ता- पाग ५, २, ८८; -तः
आपमं २, १०, ८; आपगृ ३, ८;
७, १६; हिगृ १, २३, ६; पा ७,
२, ३०; -तम् लुसू ३, ५ : १५;
या ४, २५; -ता लुसू ३, २ :
२; ६ : १४.

अपचित-राम- -मः वौगृ २, ६,
२६; -मानि वौश्रौ १८, ३९ : ८.

अपचित-तर- -रम् निमू ७, ९ : ७.

अपचितिन्- पा ५, २, ८८.

†अप-चिति^r -पावा ७, २, ३०; -तिः

†आपश्रौ १०, ११, १; २०, ३,
१; वौश्रौ १७, १९ : ४^f,

वाधुश्रौ ३, ७१ : ५; †हिश्रौ १०,
२, १४; १४, १, २५; २१, १,
२; आपमं २, १०, ८^f; -तिना

वौश्रौ १८, ३८ : १७^f; -तिभ्याम्
आपश्रौ २२, १२, २; हिश्रौ १७,
५, १६; -तिम् शाश्रौ १४, ३३,
१^३; ८; ९; ११; १२; १४; १५;
१८; १९; २१; आपमं २, १०, ८;

आपगृ १३, २; हिगृ १, १२, ५;
७; -ती काश्रौ २२, १०, २८;

a) विप. । वस. । b) विप. > नाप. (दग्ध-काष्ठ-). । गस. । c) सप्र. अपक्षाणानि <> अवक्षाणानि

इति पाभे. । d) नप्र. अपक्षायम् <> अवक्षायम् इति पाभे. । e) अपः इति पाठः ? यानि. शोभः (तु. पाभे.) ।

f) पाभे. वैप १ परि. अक्...जहि शौ १०, ४, ३ टि. द्र. । g) विप. । वस. उप. वस. । h) विप.

(ऋवीस-). । i) वैप १, परि. च द्र. । j) पाठः ? । पाभे. वैप १, १२२१ ० द्र. । k) विप. ([निन्दक-]

शूद्र-). । गस. । l) प्रास. । m) नाप. (वीणा-विशेष-). । व्यु. ? । n) सप्र. अपघाटिलाः <> अपघाटिलिकाः

<> अवघट्टिकाः इति पाभे. । o) विप. । तस. उप. कर्तरि अच् प्र. । p) नाप. ([अनमिनपकाशिन-]

वानप्रस्थ-विशेष-). । तस. । q) <√चाय इति पाप्र., √चि [ज्ञाने] इत्यर्वाचः । r) भाप. (पूजा-), नाप.

एकाह-विशेष-). ।

-स्थोः लाथ्रौ ९,४,१३.
 ✓अपचिति^१, अपचित्यति^२
 बौध्रौ १०,१० : ६१.
 अपचिति-काम- -मः शांथ्रौ १४,
 ३३, १२; आपथ्रौ २२, १२, २;
 वौध्रौ १८, ३८ : १६; हिथ्रौ
 १७, ५, १६; लाथ्रौ ९,४, १७;
 -मस्य काथ्रौ २२,१०, २८.
 अपचितिकाम-यज्ञ^३- -ज्ञः
 नित् ७,९ : १:९.
 अपचिति-मत- -मता शांथ्रौ १४,
 ३३, २१; -मान् काथ्रौ ३,३,
 ५१; वौध्रौ १८, ३९ : २; ३:८;
 माथ्रौ १०,२, २१; भाग् २,२५:
 १३१.
 †अप√चि(चयेन), अप...चये आपथ्रौ
 १६, १६, १; वैथ्रौ १८, १४ : ४.
 अपचितिनोति^४ आपथ्रौ ६, २३, १;
 हिथ्रौ ६, ६, २६.
 अप-च्य- -च्यम् शंथ १२; -ये
 आपथु ९, १; हिथु ३, २९.
 †अप-चित्^५- -चितः वाथ्रौ २, १,
 ५, २२.^६
 †२अप-चित्^७- -चितः कौस् ३१,
 १६; अथ्र ६, ८३; अपं २ : ५६;
 -चित्ताम् कौस् ३२, ८; अथ्र ७,
 ७४; अपं २ : ९०.
 अपविद्-द्वितीय^८- -यौ अपं ४ :
 १२.
 अपचिद्-भेषज^९- -जम् अथं २ :
 ९१.
 अपचिद्-भेषज-देयता- >

°देवत्य- -त्यम् अथ्र ७, ७६.
 २अप-चिति^१- -तिम् गौपि १, १, ११
 अप-चिन्वन्- -न्वन् शांथ्रौ १५,
 १९, ११.
 †अप√चित्, अपचेतयातै वौध्रौ १,
 १९ : ३५; माथ्रौ १, ३, ४, २६;
 वाथ्रौ १, ३, ६, १९.
 अप-चित- -प्रस्य. अप√चि(पूजायाम्)द्
 †अप-चेतस्^१- -तमः आपथ्रौ ३,
 १३, ६; माथ्रौ ३, १२, ९; हिथ्रौ
 २, ६, ३२.
 अप√च्छद्, अपच्छादयति हिथ्रौ १,
 ५, १३; अपच्छादयेत् माथ्रौ २,
 १, २, १९.
 अप-च्छात्र आपथ्रौ १, १७, ९; माथ्रौ
 १, १९, १०.
 अप√च्छिद्, अपच्छिनति हिथ्रौ ३,
 ८, ६१; अपच्छिन्वान् आपथ्रौ
 २४, ३, १८; आथथ्र १, १६, १७;
 हिथ्र १, ५, १६; आपथु २, १०;
 १६, १; काशु २, २२; वौशु २ :
 ५; १६ : १९; १० : ७; १०;
 ११:१६; १९ : १२; २० : ७; ९;
 ११:१३; हिथु १, ३०; ५, २२.
 अपच्छिद्येत् आपथ्रौ १४, २६,
 ३; ८; वैथ्रौ २१, १३ : १; ३;
 हिथ्रौ १५, ६, ३६:३८; ४०; ४३:
 ४८; अपच्छिद्येस् वौध्रौ २९,
 १३ : १०.
 अप-च्छिद्य काथ्रौ ३, २, ५; वौध्रौ ९,
 ३:११:१०, ५:७; १२, १५:१५:
 १९; २२, १९ : १३; वाथ्रौ;

अप-च्छिद्यऽअपच्छिद्य काशु ३,
 ३; ४, ३.
 अप-च्छिन्न- -न्नम् वौशु १० : २३;
 ३२: १८ : ४; २० : १९; २४;
 -न्नयोः वैथ्रौ २१, १३ : ५; हिथ्रौ
 १५, ६, ४१.
 अप-च्छेद्- -द्ः काशु ३, १; वौशु
 ११:४; २० : ५; मौसू ६, ५, ५६;
 -दाः वौध्रौ २६, २१ : ८; वौशु
 १० : ८; २० : १२; -दे आपथ्रौ
 १४, २६, ७.
 अपच्छेद्-पौर्वापर्य^२- -र्थे वैथ्रौ
 २१, १३ : ५.
 अप-च्छेदन- -नम् वौशु १० : २.
 अप-च्छेदम् वौध्रौ २०, १२:९; ३०:
 २०; २२, १५:१६: २३, १३:३६.
 अप√च्यु, अपच्योष्टाः^३ आपथ्रौ १४,
 २७, ७१.
 †अपच्युतकी^४- (>अपच्युतकीय-
 पा.) पाग ५, ३, ११६.
 अपजग्थ^५- पाग २, ४, ६९.
 अप√जि, अप...जयति वौध्रौ २,
 ११ : २२१; २८, ४ : ३२; हिथ्रौ
 १८, ४, ६१; पाग् २, ७, ६; वौशु
 ३, ८, ६१; वौध २, ६, ८.
 अप-जिगीषमाण- -णः^६ आपथ्र १,
 २४, २१; २, २६, २.
 अप-जित्य आथथ्र १, २४, २१^७; हिथ्र
 १, ६, ६९; गौध १०, ४६^८.
 अप-जिघांसमान- अप√ह्व द्र.
 अप-जिहीर्षमाण- अप√ह्व द्र.
 †अपजीवाः^९ अथाथ्र ६, ६.

a) बिबन्तः नाथा. । b) प्रपुत्र रूपम् । c) नाप. । मलो. कस. । d) नाप. (इष्टका-) । गस. ।
 e) अपचतः इति पाठः ? यान. शोधः । f) वैप १, परि. च द्र. । g) विप. ([शौ. षष्ठस्य काण्डस्य द्वितीय-नवम-
 रांख्यक] अनुवाक) । द्वस. । h) विप. (सूक्त-) । वम. । i) नाप. (शव-धान- [नभा. अर्थी]) । j) =उन्मनस्क- ।
 विप. । मलो. वस. । k) षस. । l) पाभे. वैप १, परि. द्र. m) नाप. (त्रायुधजीविसंघ-विशेष-) । व्यु. ? ।
 n) व्यप. । बहु. < आपजग्थि- । o) सप्र. हिथ्र १, ६, ६९ अपजिहीर्षमाणः इति पाभे. । p) पाभे.
 पृ ७३ f द्र. । q) पाठः ? (अपि√जीव > जीवि > कर्तरि) अपि-जी(व >) वा- > -वाः (आपः) इति शोधः ।

अप/ज्ञा, अपजानीयात् वौश्रौ २३,
१४ : २०.

अप/ज्वल् > अप-ज्वलित- -तम्
आपश्री १५, २०, १४; भाश्री
११, २१, १५; माश्री ४, ७, ६;
बौगृ ३, ४, २४; भागृ ३, ६ : २१.

अ-पञ्चपदी^a - चाम् शौच ३, ५.

अ-पञ्चम^b - मः शुभ्रा ४, १२०; १६३;
-माः शैशि ६७; २५८; -मैः
याशि २, ९५.

अ-पञ्चमी^c - म्याः पा २, ४, ८३; ५,
३, ३५; पावा १, १, ७२.

अ-पट्ट-बन्ध^d - न्धः वैध ३, ११, ७.

अ-पठित- -ते ऋद्रा ७, ३३.

अ-पण्य^e - ण्यम् गौध ७, ८; -ण्यानि
आपध १, २०, ११; हिध १, ६,
२५; -ण्ये पा ५, ३, ९९.

अपण्य-विक्रय^f - येषु बौध ४, १, ७.

अप/तन् > अप-तत- -तः या ३,
२०; -तम् या ३, १६.

अ-पतनीय^g - यानि आपध १, २७,
९; हिध १, ७, ३४; -येषु आपध
१, २६, १२; हिध १, ७, २३;
-यौ आपध १, २९, १५; हिध
१, ७, ७२.

अप-तस्थिवस- अप/स्था द्र.

अ-पति^h - तिः गौध १८, ४.

अपति-स्व- -त्वात् आम्रिगृ ३, ७,
४ : २०; बौपि २, ४, ४.

अ-पति(क)काⁱ - का या ३, ५.

†अ-पति(हन्)घ्री^j - घ्री आपध
१, १, ४; पागृ १, ४, १६; आम्रिगृ

१, ५, ३ : १०; बौगृ १, १, २५;
भागृ १, १५ : ११; मागृ १, १०,
६; वागृ १४, ३; हिगृ १, २०, २;
जैगृ १, २१ : ८; -घ्रीम् आपध
१, १, ३; कागृ २५, २०; बौगृ १,
१, २४.

अ-पतित.ता^k - तम्, -तस्य शंघ
३०३; -ता क्रौगृ २, १, ५; वागृ
५, ३; गौध १, १४; -तान् शंघ
४२.

†अ-पतिव्रता- -ता^l क्रौगृ ३, १५, ५;
शागृ ३, १३, ५.

अ-पत्नी^m - न्नी हिश्री १, ५, ७२.

अ-पत्नीकⁿ - कः काश्री ५, ८, ५;
आम्रिगृ २, ७, १० : ५; वैध १,
६, ६; २, ५, ८; ३, ५, १३; -कस्य
काश्री २, ५, १८; वाश्री १, ३, ३,
१०; -काः वैध १, ७, १; ८, १.

अपत्य^o - पाउभो २, ३, ४; फि ६७;
-त्यम् आश्री ७, ११, २२;
बौश्रीप्र ५४ : १४; निस् १०,
३ : ३७; सु ७, ३; वैगृ ७, ४ : ४;
कौस् ६०, ३३; वाध १२, ३१†;
२०, ३६; २८, १६; शंघ १५९ :
२; २८८†; २८९; २९०;
बौध १, ५, ५३; विध ७८, ९; वैध
४, १, २; गौध १८, ९; २८, १८;
४५; निघ २, २; या ३, १६; ६;
७; ६, ९; १२, ९; १३, ५; पा ४,
१, ९२; १६२; पावा १, ४, १; ४,
१, १६२; -त्यस्य अप ४८, ८७;
शंघ १५९ : २; २९८; आपध

२, १३, १०; विध ९४, २; हिध
२, ३, १०; निघ २, २; -त्यात्^p
आपध २, २७, ७; हिध २, ५,
२२६; -त्यानाम् वाश्री ३, २,
५, ४; शंघ ८५; -त्यानि वैगृ
६७:८; मागृ २, १४, १७; अप
७०^q, ११, ३; -†त्याय आश्री
३, १२, २३^r; आपश्री ९, ९, १^s;
बौश्री १४, २४ : ३९^m; २७,
१० : ११^t; भाश्री ९, ११, ८^u;
१२, १२^v; हिश्री १५, ३, १^w;
१०^x; अप्राय ५, १^y; \$या ११,
३०; १४, २६; -त्ये पागृ २, ५,
४२; आपध २, १६, ८; हिध २,
५, ८; पा ६, ४, १७०; पावा ४,
१, ९३; १२८; १३७; -त्येषु
पावा ४, १, ८५.
आपत्य^z - त्यः पावा ४, १,
१६३^z; -त्यस्य पा ६, ४, १५१;
-त्यात् पावा ४, १, १६३.

अपत्य-जनन- -नाय या १२, ४५.

अपत्य-दर्शन- -ने विध ९४, २.

अपत्य-नामन्- -म या ३, २; -मानि
निघ २, २; या ३, १.

अपत्य-योग- -गात् पावा ४, १, ९३.

अपत्य-लिप्सु- -प्सुः गौध १८, ४.

अपत्य-वत् पावा ४, १, १६६.

अपत्य-वत्- -वान् चात्र ४० :
१८^o; २०.

अपत्य-सम- -मेन गौध ६, १०.

अपत्या(त्य-आ)दि- -दिषु पावा १,
२, ६४; ४, २, ९२.

a) तस. उप. =सर्वनामस्थानविभक्ति-। b) विप. (।वर्ण-। स्पर्श-)। तस.। c) तस. उप. =विभक्ति-।

d) विप. (।अशुद्ध-क्षत्रिय-। भोज-।)। तस. > बस.। पाठः ? पट्टं इति? C.।

f) बस.। g) अपतितम् इति ल.; अपतनम् इति राज.। h) विप.। बस.। i) वैप १, परि. च द्र.।

j) पाभे. पृ १३७ III द्र.। k) भा, अप^o इति भाष्य-संमतः क्वाचित्कः पाठः। l) पाभे. वैप १ परि.
मा १३, ३५ टि. द्र.। m) पत्याय इति पाठः? यनि. शोधः (तु. उत्तरं स्थलम्)। n) विप.। तस्येदमीयः

अन् प्र.। o) यथा इति पाठः? यनि. शोधः (तु. उत्तरं स्थलम्)।

अपत्या(त्य-अ)न्तर^a- -रे पावा ४, १, ९३.
 अपत्या(त्य-अ)भिधान^b- -ने पावा ४, १, ९२.
 अपत्या(त्य-अ)र्थे- -र्थे वौध २, २, २०; २३; २६.
 अप/अप्र>अप-अपण->अप-अपण-कर्मन्- -र्मणः या ३, २१.
 अप-अपिण्यु- पा ३, २, १३६.
 अप-पथ- पा ५, ४, ७२; -थम् पा २, ४, ३०; -थेन वौश्रौ १६, ९, ३१.
 अप-पथ-दायिन्^c- -थो विध ५, ९१.
 ?अपथा^d वाश्रौ १, ३, ७, ७.
 अप-पथ्या^e- -थ्याभिः लाश्रौ ६, २, १४.
 अप-दक्षिण^f- पाग २, १, १७.
 अप-पन्थ-दायिन्^g- -थो गोग ३, २, १२.
 अप-पद्^h- -पदे वौश्रौ ८, १९ : १२१.
 अप-पद्- पाग ५, ४, १३९.
 अप-पद्^h->°द-त्व- -त्वात् पावा ८, १, ६८.
 अप/दद्, अपदह ऋप्रा २, ४६१.
 अप-पदातिⁱ- -तिः वौश्रौ १, १, २४१;
 -तिम् आम्रिण्य २, २, ३ : २;
 -तीन् आपश्रौ २०, १, ६; वौश्रौ १५, १ : २०; वाश्रौ ३, ४, १, १०; हिश्रौ १४, १, ६; -तौ पा ४, २, १३५.
 अप-पदाति-गो-यवागू-ग्रहण^k- -णम् पावा ४, २, १३३.

अ-पदा(द-आ)दि^l- -दौ लाश्रौ ७, ७, ३३; पा ८, १, १८; ३, ३८, पावा ८, ३, ३८.
 अ-पदा(द-आ)दि-विधि- -धौ पावा १, १, ६३.
 अ-पदा(द-अ)न्त- -न्तस्य पा ८, ३, २४; ५५; पावा ८, १, १७; २, ८०; -न्तात् पा ६, १, ९५; -न्ते माशि १२, ७.
 अपदान्त-ग्रहण^m- -णम् पावा ८, ३, १३.
 अपदान्ता(न्त-अ)धिकार- -रात् पावा ८, १, १७.
 अ-पदान्त-भाजⁿ- -भाक् ऋप्रा ७, ५; -भाजम् ऋप्रा ६, ५४.
 अ-पदि-व(द्व>)द्धा^o- -द्धा आपश्रौ १०, २२, ९.
 अप/दिश्>अप-दिश्य काश्रौ ७, २, ५.
 अप-देश- -शः मीस् ३, ४, २; १०, ६, ४७; -शात् काश्रौ २२, १, १४; -शे पा ६, २, ७; -शेन विध ९३, ११.
 अप-पद्य^p- -द्यः ऋप्रा ९, ३९.
 ?अ-पद्यमान, ना^q- -नः^o आपश्रौ १५, ४, ७; वौश्रौ ९, ४ : ११; भाश्रौ ११, ४, ५; पैश्रौ १३, ५ : ११; हिश्रौ २४, १, २१; -?ना^o आपश्रौ १६, ५, ११; वौश्रौ १०, ७ : १२; पैश्रौ १८, २ : ४; हिश्रौ ११, १, ६५.

†अप/द्रा, अपदान्त आपमं १, ६, १०; काग २५, ५.
 †अप/धम्, अपाधमत् शुभ ३, २५५.
 अप/धू, अपधूनोमि शांगृ ६, ५, ५१.
 †अप/ध्वंस्, अपध्वंसते आपश्रौ २२, ११, १०; ११; हिश्रौ १७, ५, ६.
 अपध्वंसयति आपश्रौ १५, १५, १; अपध्वंसयतः आपश्रौ १२, २२, २; वैश्रौ १५, २७; २६; हिश्रौ ८, ७, ८.
 अप-ध्वंसमा(न>)ना- -नाम् आपश्रौ २२, ११, ११.
 अप/नम्>अप-नत- -तौ वौश्रौ १७, २८ : १३.
 अप-नत-ही^r- -हिया सु ७, ४.
 अप-नाम^s- -मः वौश्रौ ११ : ५; १२ : ३; १३ : ३; -मात् वौश्रौ १३ : ३; -मे वौश्रौ १३ : ५.
 अप-नय-, °नयन- अप/नी द्र.
 अप/नश्, अप-नश्यताम् काग ३५, १११.
 †अप-नाशित- -तः वौश्रौ २, ५ : २४; आम्रिण्य २, ४, ५ : १६.
 अप-नामन्- पा ६, २, १८७.
 अप-निनीपत्- अप/नी द्र.
 अप/नी, अपनयति निस् ६, ७ : ४३; ८, १ : ५; ३१; गो १, २२; अपनय वैश्रौ १, २१ : ३१; अपनयेत् आपश्रौ ९, ४, ८; ११;

a) 'अन्यद् अपत्यम्' इति तस. (पा २, १, ७२)। b) षस.। c) विप.। तस. उप. उस.।

d) पाठः? अवयवः (<√अन्) इति शोधः (तु. सा L तैश्चा २, ६, २ J)। e) तस. उप. नाप. (विष्णुति-).।

f) तु. पागम.। भारुडा. प्रसू. तु अपर-दक्षिण- इति। g) वैप १, परि. च द्र.। h) वस. उप. = पाणिनीय-संज्ञा-।

i) विप. (ऋत्विज्-, वर-, शिशु- प्रसू.)। तस.। j) °दिः इति पाठः? यनि. शोधः। k) द्रस.>षस.। l) तस. उप. षस.।

m) विप. (।सोमकयणी-।गो-)। तस.। n) विप.। तस. उप. = समासावयव-। o) पाभे.

वैप १ परि. अपद्यमाना टि. द्र.। p) कस.। q) गस. उप. भाप.। r) अप, इतः, नश्यताम्

इत्यस्य स्थाने आपमं २, १३, १० हिगृ २, ३, ७ अपेत, नश्यतात् इति पाभे.। s) °शिनः इति पाठः? यनि.

शोधः (तु. पूर्व स्थलम्)।

निसू ८, ११ : १६.

अपनिनाय निसू ६, २ : १०.

अप-नय- -यः मीसू ३, २, ३१^६;
८, ३३; ५, ४, १६; ६, ५, २; ११;
१८; ९, ४, ४१; ११, २, ६२;
-यात् मीसू ३, २, ३०; ६, ५, १६.

अप-नयन- -ने पा ५, ४, ४९.

अप-निनीषत्- -पन्तः वाधूश्रौ ४,
७९ : ६.

अप-नीत- -तः या ३, २०; मीसू
३, २, ३३^६; ५, ४५.

अप-नीय वैश्रौ ४, १० : ८; वैताश्रौ
२१, ४; वैश्र ५, १३ : २३; कौसू
७९, १०; वेज्यो २७.

अप✓नु, अपनौति कौश्र १, ३, ६^०; ५,
१; शांश्र १, ८, ९.

अप✓नुद्, अपनुदति आपश्रौ ११,
७, २; कौसू ४८, ४०; अप...
नुदन्ते आपध १, २५, ११;
हिध १, ७, ७; अप...नुदे कौसू
९७, ८^१; ऋअपनुदन्तु शाश्रौ
४, ९, ५^४; काश्रौ १०, ७, १३;
वौश्रौ ४, ४ : १०; ऋअप (नुद-
स्व) आश्रौ ७, ४, ७; ८, ३, २;
शाश्रौ १२, ३, ५; १३, १; वैताश्रौ
३२, १३; शांश्र ६, ५, ६; ऋअ
२, १०, १३१; वृदे ८, ४६; अत्र
२०, १२५; ऋअप...नुद आश्रौ
४, ४, २; आपश्रौ ११, ७, २;
माश्रौ २, २, २, १७; वैश्रौ १४,
५ : २३; हिश्रौ ७, ५, ११; वौश्र
१, २, ४४; ३, ५, १९; अप(नुद)

शाश्रौ ५, १३, ३; अपानुदत्
वाधूश्रौ ४, ५३^२ : ४; अपानुदन्त
वाधूश्रौ ४, ४५ : ११; ऋअप...
नुदेताम् आपश्रौ ४, ८, ५; माश्रौ
४, ११, ४; हिश्रौ ६, २, १७.
अपनुनोद वाधूश्रौ ३, ८८ : १५.
अपनोत्स्ये वाधूश्रौ ४, ४५ : १०;
५३^२ : ३.

ऋअप-नुत्त- -त्तः आपश्रौ १२, २२,
२^{२०}; -त्ता चात्र ४:४; -त्तौ^१
आपश्रौ १२, २२, २; माश्रौ २,
४, १, ७; वैश्रौ १५, २७ : २५;
२९ : ३; हिश्रौ ८, ७, ८; २१.

अप-नुत्ति- -त्तये विध ५२, १४;
५४, ३४.

ऋअप-नुद्य आश्रौ २, ९, १०^६; कौश्र
३, ५, २^६; शांश्र ३, ८, ४^६;
आमिश्र २, ५, ३ : १९; वौश्र ३,
७, १५; कौसू ७४, २०^६; ९८, २.

अप-नोद- -दे काश्रौ १, ९, १७.

अप-नोदन^६- -नः वृदे ७, ९१;
-नानि कौसू १४, १४; -नेन
कौसू २५, २२.

अपनोदना (न-अ) पाघ^१-

-वाभ्याम् कौसू ४२, २२.

अप-नोद्य पाश्र ३, १०, १९.

अ-पञ्ज^१- > ऋअपञ्ज-गृह^१- -हस्य
आपश्रौ ३, ८, ४; ११, २०, १३;
वौश्रौ १, १९ : ३९; ६, ३२ : ११;
माश्रौ ३, ७, ४; माश्रौ २, २, ५,
१५; वाश्रौ १, ३, ६, २२; वैश्रौ ७,
८ : ५; हिश्रौ २, ५, ३; ७, ८, ५५;

चाअ ३ : ५.

अपञ्ज-दत्^१- -दत् आपश्रौ ७, १२, ४.

अपञ्जदती^१- -ती वौश्रौ २४,

३८ : ८; -तीम् आपश्रौ १८,

२, १२; वाश्रौ ३, १, १, २०;

वैश्रौ १७, १० : ५; हिश्रौ १३, १,

२०; -त्याः वाश्रौ ३, १, २, ३०.

अपञ्जदद्-अवसन्न-वृथामांस^६-

-सानि गौध १७, २९^१.

अपञ्ज-दन्त^३- -न्तम् भाश्रौ ७, ९,

७; -न्ताः वाध १४, ४५.

अप-पाठ^२- -ठात् याशि १, ४२.

अप✓पद्, ऋअपपद्यताम्^० आपश्रौ
१, ९, ९; वौश्रौ २, १० : ७^६; हिश्र
२, १०, ७.

अप-पर्या(रि-आ)✓वृत्, अपपर्या-
वर्तेत आपश्रौ १०, १५, ९; १०;
२४, २, ११; भाश्रौ १, १, १४;
१०, ८, १०; वाश्रौ १, १, १२;
वैश्रौ ३, ९ : १०; हिश्रौ १०, २,
६४; आपध १, ७, २; हिध १,
२, ६२.

अपपर्या-वृथ्य गोग ४, ३, १२.

अप-पात्र, चा^१- -त्रम् आपश्रौ १५,

२१, ९; -त्राम् वाध २०, १६;

वौध २, १, ४४; -त्रेण वौश्रौ

२७, ९ : ६; आपध १, १६, ३०

हिध १, ५, २९; -त्रेभ्यः आपध

१, ३, २५; हिध १, १, १००;

-त्रैः आपध १, २१, ६; २, १७,

२०. हिध १, ६, ३६; २, ५, ४८.

अपपात्रा-गमन- -नम् आपध १,

a) अनपायः इति काशं. पाठः? । b) ंतम् इति प्रयासं. कालिसं. च । c) ंनोति इति पाठः? यानि.

शोधः । d) पाभे. वैप १ परि. अपनुदताम् टि. द्र. । e) पाभे. वैप १ परि. अपमृष्टः मा २०, १७ टि. द्र. ।

f) पाभे. वैप १ परि. अपनुत्ता काठ ४, ४ टि. द्र. । g) गपा. मंत्रा २, १, १४ अपमृज्य इति पाभे. । h) विप.,

भाप. । कत्राचर्थे ल्युट् प्र. । i) नाप. (सूक्त- [श्रौ १, २६; ४, ३३]) । द्रस. । j) वैप १, परि. च द्र. । k) द्रस. ।

l) अपञ्जदाय-इति क्वाचित्कः मूको. । m) विप. । बस. । n) नाप. प्रास. । o) सप्र. अपपद्यताम्

<>अवपद्यत<>अवपद्यताम् इति पाभे. । p) अव^० इति क्वाचित्कः मूको. । q) विप., नाप. । बस. ।

२१,१७; हिघ १,६,४७.

✓अपपात्रि^a>अपपात्रित- -तस्य
बंध २९९.

अप-पाप^b- -पम् अप १,२६,५१.

अ-पपिवस्^b- -पुषः अप्रा ३,४,११.

अप-पूत- पा ६,२,१८७.

अप✓पु, अपप्रवृत्ते काश्रौ १५,६,२९.

†अप✓प्रुप्, अपप्रोष्ट द्राश्रौ १०,२,
१०; लाश्रौ ३,१०,९.

अप✓प्नु, अपप्लावयति बौश्रौ ७, ३ :
१६; १५,६ : २; १३; माश्रौ २,
३, २, १७; वाश्रौ ३,४,१,२५;
हिश्रौ ८,१,६७.

अप-झाव्य आपश्रौ १२, ५, १०;
२०, ३, १४; ४, ५; वैश्रौ १५,
६ : ६.

अप-बर्हिस्^b- -हिभ्याम् वैश्रौ ९, १० :
५; -हिषः शाश्रौ ३, १६,
२४; ८, ११, ९^c; काश्रौ ५, ८,
३५; आपश्रौ ८, ८, ६; १४,
२३; काठश्रौ ३६; बौश्रौ ५,
१३ : ९; ८, १९ : २०; माश्रौ
८, १७, १६; माश्रौ १, ७, ४, ३९;
६, २६; ५, १, ४, १५; वाश्रौ १,
७, ४, २९; वैश्रौ ९, ७ : २; १६,
२५ : ६; हिश्रौ ५, ४, ४६; ९, ५,
२८; -हिषो शाश्रौ ३, १७, ७;
आपश्रौ ८, ८, १०; १६, १७; १३,
२०, ७; बौश्रौ ५, १५ : २८; ८,
२० : ६; माश्रौ ८, २०, ११; वाश्रौ
१, ७, ४, ५७; वैश्रौ १६, २५ : ९;
हिश्रौ ५, ४, ९३; ९, ५, ३५.

†अप✓बाध्, अपबाधताम् वाश्रौ

२, २, ५, ७^d; द्राश्रौ ११, २, ९;
लाश्रौ ४, २, ८; आश्रु २, ९, ४^e;
अपबाधस्व जैतु १, १२ : १५.

अप-बाढ- -ढः, -ढम्, -ढाः वाश्रौ
१, ३, १, ४२^f.

†अप-बाधमान- -नः आपश्रौ ५,
१२, ३; बौश्रौ २, १६ : ५५;
हिश्रौ ६, ५, १४.

अप✓भञ्ज्>अप-भज्य शाश्रौ १३,
१३, १; काश्रौ २२, १, १०;
आपश्रौ १३, ५, २; १४, २३, ३;
२२, १, ८; वैश्रौ २१, १० : २;
हिश्रौ १७, १, ९.

अप-भ(य >)या^g- -या आश्रौ ८,
१३, १३; -याम् शाश्रौ १०,
१९, २.

अप-भस्मन्^h- -स्मानम् भाश्रौ १, २,
६, २१.

अप✓भाप् > अप-भाषⁱ- -पस्य
वाधुश्रौ ४, २८ : ९.

†अप✓भिद्, अप...भिन्वि आश्रौ
७, २, ३; वैताश्रौ २७, २०.

अप✓भू, †अप...भवन्तु हिश्रौ २१,
१, २; २, २१.

अप-भूत- -तः बौश्रौ १४, १७ :
२०; १८ : २३; २४; १८, १४ :
१२.

अप✓भृ (<हृ [हरणे])>अप-भर-
(एण >)णी^j- -णीभिः बौश्रौ २८,
३ : ४; ४ : १४; १५; -णीभ्यः
आपश्रौ १७, ६, ८; बौश्रौ १०,
४६ : २०; हिश्रौ १२, २, २०;
वैश्रु ३, २० : १२.

अप✓मन्>अप-मानित- -ताः शाश्रु
२, १६, ४; आश्रु १४, १०.

अप✓मा(माने), †अप(भिमीमहे) अश्र
१८, २.

अप-माय, अप-मित्य, अप-मित्य-
अप✓मे द.

अप-मुख- पा ६, २, १८६.

अप✓मृज्, अपमार्ष्टि काश्रौ ९, ६, ३.

अपमृजते काश्रौ २१, ४, २२;

†अपमृज्महे^k द्राश्रौ ६, ४, ११;

लाश्रौ २, १२, १२; †अप...

मृज्महे आम्रिष्ट ३, ५, ६ : ३

बौपि १, ४ : १९; †अप (मृजे

थाम्) अश्र १८, ४.

अपमृज्यते वैध २, १०, ४.

अप-मार्जन- -नम् काश्रौ ९, १०, ४.

अपमार्जन-प्रधावना (न-अ) वो

त्तण^k- -णेभ्यः गौध २, ६.

अपमार्जन-संयुक्त- -क्तानि चाश्र
४ : ४.

†अप-मृष्ट- -ष्टः^l काश्रौ ९, १०, ४^l;

शुश्र १, ४५५^l.

अ(प >)पा-मार्ग^b- -०र्गं शुप्रा

५, २१; -र्गः आश्रु २, ७, ६;

शुप्रा ३, १२९^l; अप्रा ३, ४,

१^l; -र्गम् आम्रिष्ट २, ५, १ :

१६; ३, ५, ५ : ७; ६, ३ : ५;

काश्रु ७२, १; बौपि १, ४ : ७;

११ : ४; गोश्रु ३, ९, ४; अप

१८^l, ५, १; अश्रां २१, ४; -र्गान्

आपश्रौ १८, ९, १६; वाश्रौ ३,

३, १, १७; हिश्रौ १३, ३, ३३;

-र्गेण आम्रिष्ट ३, ६, ३ : १४;

a) गिजन्तो नाधा. । b) वैप १, परि. च द्र. । c) सपा. शांत्रा १८, १० ऋतेबर्हिष्कान् इति पाभे. ।

d) पाभे. वैप १ पातु मा ४, १५ टि. द्र. । e) पाभे. वैप १ परि. अपसेधति शौ २०, १३५, १३ टि. द्र. ।

f) नाप. (प्रजापति-तन्-). । बस. । g) विप. । बस. । h) तु. संस्कर्ता; वैतु. मूको. अवभा^o इति । भाप. ।

i) नाप. (इष्टका-विशेष- [आपश्रौ. हिश्रौ.]) । शिष्टं वैप १, परि. च द्र. । j) पाभे. वैप १ परि. टि. द्र. । k) द्रस. ।

l) पाभे. वैप १ परि. मा ७, १७ टि. द्र. ।

बौपि १, ११ : ११; जैगृ २, ५ : १६; अप २६, ५, ४; -गीः काश्रौ २१, ४, २२; कौगृ ३, १, २; शांगृ ३, १, ३.

अपामार्गी^a- -गीः कौसू ४६, ४९; अशां २१, ३१.

अपामार्ग-तण्डुल^b- -लान् काश्रौ १५, २, २.

अपामार्ग-त्रयोदशी^c- -इयाम् अप १८^२, ५, १.

अपामार्ग-पालाश-शिरीषा (ष-अ) कौं (क-औ) दुम्बर-सदाभद्रा (द्र-अ) मृततृण^d- -णम् जैगृ २, ६ : २; ३.

अपामार्ग-पालाश-शिरीषौ (ष-औ) दुम्बर-सदाभद्रा (द्र-अ) मृत तृण^d- -णम् आमिगृ २, ५, ९ : २^e.

अपामार्ग-प्रसून^b- -नान् कौसू ५, २२.

अपामार्ग-वनस्पति^f-देवता- > वत्य- -स्यम् अश्र ४, १७.

अपामार्ग-वीरुध^g- -रुधम् अश्र ४, १७.

अपामार्गवीरुध-दैवत^h- -तम् अश्र ७, ६५.

अपामार्ग-शिरीष^b- -षयोः माशि ४, १; याशि १, ३५.

अपामार्ग-सक्तु^b- -क्तून् बौश्रौ १२, ४ : १०; १३; २२, १७ : ६; हिश्रौ १३, ३, ३४; -क्तूनाम्

बौश्रौ २२, १७ : ५.

अपामार्ग-होमⁱ- -मः काश्रौ १५, २, १; -मेन आपश्रौ १८, ९, १५; हिश्रौ १३, ३, ३२.

अपामार्गे(र्ग-इ)धम- -ध्मे कौसू ४६, ४९.

अप-मृत्यु^j- > ंव्युं-जय-कल्प^k- -ल्पम् आमिगृ २, ५, ४ : १.

अपमृत्यु-शत^l- -तम् अप १२, १, १०.

अप/मृश, अपामृशत् आपश्रौ ९, १७, ४१^m; वाधूश्रौ ३, २६:६; हिश्रौ १५, ७, २४ⁿ.

अपामृशतम् शाश्रौ ८, ११, १३^o.

अप/मे > अप-माय, अप-मित्य पा ३, ४, १९; ६, ४, ७०.

आपमित्यक- पा ४, ४, २१.

अपमित्य-याचित^p- -ताभ्याम् पा ४, ४, २१.

†अप-मित्य^q- -स्यम् वैताश्रौ २४, १५; कौसू ६७, १९; १३३, १; अप ३७, ११, १; अश्र ६, ११७.

अप/भ्यक्ष, अपो (प-उ) ...भ्यक्ष ऋप्रा ५, १९^१.

अप/यच्छ, यम् (यमने), अप-यच्छति हिश्रौ १, ७, ६६; बौश्रौ ७, ५ : ४०; ६ : २४.

अप-यत्य बौश्रौ ७, ६ : ३८; भाश्रौ ३, ५, १६.

अप-यम्य आपश्रौ १२, १४, ९; भाश्रौ ७, १४, १०; हिश्रौ ८, ४, १०.

अप/यज्^p, अपयजामसि कौसू ९७, ८^q.

१अ-पयस्य^r- -स्यः द्राश्रौ १, २, १४; लाश्रौ १, २, ८.

२अ-पय(स्या >)स्य^s- -स्याः काश्रौ १०, ३, १९.

अप/या > यापि > अप-याप्य^t- -प्यात् वाध १५, १९.

१अ-पर- ३अ-द्र.

२अ-पर, रा- पाग १, १, २७; ३, १, २७;

-रः काश्रौ १३, ३, ७; आपश्रौ;

-रऽ-रः हिध २, ५, १६९^u;

-रम् आश्रौ ५, १२, १४XX;

शांश्रौ; -रम्ऽ-रम् माश्रौ १, २, ६, ७XX; वाश्रौ; -रया

आश्रौ; -रयोः आश्रौ २, ४, ६; काश्रौ; -रस्मात् आपश्रौ ११, ९, ५;

काश्रौ; -रस्मिन् काश्रौ ७, २, १८; आपश्रौ; -रस्मै

आपश्रौ २१, २४, ३; द्राश्रौ; -रस्य माश्रौ १, १, १, ५XX; आमिगृ;

-रस्याः वाश्रौ ३, ३, ४, ७; वैश्रौ; -रस्याम् काश्रौ १६, ८, २३; आपश्रौ; -रस्यै शाश्रौ

१७, ४, ३; आपश्रौ; -र काश्रौ १७, ८, ४; आपश्रौ; -राः काश्रौ १७, १२, ३;

काश्रौ; -राणि आपश्रौ १, १५.

a) नाप. (तत्-समिध्- Lतु. BW.; वैतु. B. Lकौसू. भू. XLV] विप. इति।) । ङीष् प्र. उसं. (पावाग ४, १, ४१) । b) नाप. । षस. । c) मलो. कस. । d) समाहारे द्रस. । e) 'भद्रा अमृ' इति पाठः ? यनि. शोषः (तु. जैगृ.) । f) कस. । g) विप. । बस. । h) द्रस. । i) नाप. । तृस. । j) प्रास. । k) उस. > षस. । l) पस. । m) पाभे. वैप १ परि. अवामृशत् काठ ३५, ४ टि. द्र. । n) वैप १, परि. च द्र. । o) पाभे. वैप १, ११३२ j द्र. । p) उपसृष्टस्य धा. हिंसायां वृत्तिः । q) पाभे. वैप १ परि. अवयजामहे काठ ३८, १३ टि. द्र. । r) विप. (Lअ-पयोविकृत-] उदमन्थ-). तस. । s) विप. (सवनीय-पुरोडाश-). बस. । t) =प्राय-श्चित्त-। गस. उप. भाप. । u) सप्र. अपरःऽअपरः <> अवरःऽअवरः इति पाभे. ।

६XX; भाश्री; -रात् गोश्रु ४, ७, २०; -रात् आश्री ५, ३, १९; काश्री; -राभ्याम् आपश्रु ८, १३; हिश्रु; -राम् काश्री ९, २, १५XX; आपश्री; -राम्-राम् आपश्री १७, ६, ६; वैश्री; -रासु आश्रु २, ५, ८; काश्रु; -रे काश्री ७, १, १४XX; आपश्री; -रेण आश्री १, १, ४XX; आपश्री; आश्रिण ३, ८, १ : १४^a; -रेषाम् कौश्रु २, १८; बौश्रु; -रेषु मीश्रु ११, २, ४७; -रैः बौश्री १०, १० : २; -रौ काश्री १८, ४, १९; आपश्री।
अपरी- पा ४, १, ३०; -रीश्रु आपमं १, ११, ९; बौश्रु १, ७, ४३; माश्रु १, १४, १६।
अपर-काल^b-त्व- -त्वात् काश्री ५, ४, २८; ९, १३, १०।
अपर-कृष (र>) री^c- -रीम् काश्री १२, ४, १०।
अपर-क्षेत्र-मयादा^d- -दायाम् बौश्री १३, १८ : ९।
अपर-ज^e- -जान् बौश्री १४, २० : २४^f।
अपर-जन^g- -ने काश्री २२, २, २३।
अपर-तस (:) बौश्री ६, २५ : १६; वाश्री १, १, २, १३; वैश्री १३, १३ : १२; बौश्रु १० : ७।
अपर-त्व- -त्वात् पावा ६, १, ८४।

अपर-दक्षिण^h- पाग २, १, १७; -णस्मिन् वैश्री १४, ८ : ७।
अपर-दिशाⁱ- -शायाम् वैश्री १८, २० : ६०।
अपर-द्वार^j- -रेण वैश्री १४, १६ : २; वैश्रु ३, १६ : १२।
आपरद्वारिक^k- -कः बौश्री २१, १९ : १; -कम् बौश्री २१, ९ : २८।
अपर-पक्ष^l- पाग ४, २, १३८; -क्षः काश्रीसं २८ : १५; बौश्री १०, १२ : १; भाश्रु १, १२ : ४^f; हिश्रु २, १४, २; द्राश्रु २, २, ७; -क्षम् शाश्री ३, ८, १०; आपश्री २३, १२, २०; बौश्री १७, ५१ : ९; ५२ : ५; ५३ : ६; हिश्री १८, ४, ३४; निश्रु २, ५ : ११; गोश्रु १, ५, ६; गौश्रु २७, १३; -क्षस्य काश्री २४, ४, २२; आपश्री; द्राश्रु २, १६, ७^f; -क्षाः जैश्रु २, ३ : १; -क्षानाम् आश्रु २, ४, १; -क्षात् वाधूश्री ४, १९^r : ७; -क्षान् आपश्री १९, १२, १०; हिश्री २३, २, २१; -क्षे आश्री ३, १०, १८; शाश्री ४, १५, ८; १४, ३२, २; आपश्री ६, १६, ५; ७; बौश्री; -क्षेषु कौश्रु ३, १५, १; शाश्रु ३, १२, १।
अपरपक्षा (क्ष-अ) तिशि (ष्ट>) ष्ट^l- -ष्टाः गौमि २, ७, ५।

अपरपक्षा (क्ष-अ) न्त^m- -न्तम् या ११, ६।
अपरपक्षीय- पा ४, २, १३८।
अपरपक्षे (क्ष-इ) ष्टका^m- -काः बौश्री १९, ३ : २६।
१अपर-पूर्वⁿ- -र्वे काश्री ८, ६, ७।
२अपर-पूर्व^o- -र्वाणि हिश्री २, २, १९^p।
अपर-प्रथम^o- -मानि आपश्री २, १९, ४^p।
अपर-भाव^q- -वम्, -वस्य या १, २।
अपर-रात्र^r- -त्रम् बौश्री २४, २० : ३; वैताश्री ५, ८; वाध १२, ४६; आश्रु १, ५, १२; ३२, १५; विध ३०, २७; हिश्रु १, २, १२; ८, ५७; गौध ९, २८; -त्रात् अप ७२, ३, ५; गौध १६, २५; -त्रे काश्री ७, ४, २६; ९, १, १; ११, १, १७; आपश्री ६, ४, १०; १०, १७, ५; बौश्री; -त्रेण कौश्रु १४१, ४१।
अपर-वितृतीय-लक्षण^s- -णेन काश्रु १, २७।
अपर-वी(धि>)थी^t- -थीषु अप ५२, १, ४।
अपर-वेद्य(दि-अ)न्त^u- -न्तम् वैश्री १४, १० : ४।
अपर-श्वस (:) गोश्रु ४, २, २।
अपर-सक्थि^v- -क्थ्योः आपश्री ७, २५, ६।

a) सप्र. अपरेण<> जघनेन इति पाभे. । b) वस. । c) कस. उप. नाप. (ईषा-). । d) कस.> षस. । e) वैप १, परि. च द्र. । f) =पाश्चात्त्य- । कस. । g) नाप. (वि-दिश-). । तस. (पा २, २, २६), अस. । पाग. । च । पाभे. ष्ट २४९ । द्र. । h) =पश्चिम-दिश- । कस. । i) =दृष्ट-द्वार- । कस. । j) विप. (यजमान-यजमानव्रत-). । तत्रभवीयष् ठञ् प्र. उर्स. (पा ४, ३, ६०) । k) सप्र. अपरपक्षस्य<> कृष्णपक्षस्य इति पाभे. । l) विप. (रात्रि-). । षस. । m) षस. । n) विप. । द्रस. । o) विप. । बस. । p) सप्र. *पूर्वाणि<> *प्रथमानि इति पाभे. । q) कस. । r) नाप. (रात्र्या उत्तरार्ध-). । तस. समासान्तः अञ् प्र. (पा ५, ४, ८७) । s) षस. पूष. कस. । t) =परद्वस् (:) । अव्य. । कस. । u) नाप. । कस. ।

†अपर-सद्^a -सद्भ्यः^b माश्रौ २, ३, ७, ३; द्राश्रौ ४, ४, १३.
 अपर-सम^c - पाग २, १, १७^d.
 †अपरस्तात्^e वैश्रौ १३, ५ : ३.
 अपर-स-पर^f - रम् ऋत ४, ६, ७;
 -राः पा ६, १, १४४.
 अपरा(र-अ)मि^g - मिः बौश्रौ २४, २६ : २^h; -मिभ्याम् वैताश्रौ १, २०; -मी काश्रौ २, १, ११; ४, १३, १२^h; १५, २; वैताश्रौ ४, १८; -मीनाम् काश्रौ ६, १०, १०; -मौ आमिष्ट ३, १०, ३ : १४; -ग्न्योः वैताश्रौ ७, १५.
 अपरा(र-अ)ङ्गⁱ - ङ्गे शुप्रा ४, १७१; शैशि १८८; याशि २, २३.
 अपरा(र-अ)न्त^j - न्तः अप ५०, २, ३.
 †अपरा(र-अ)पर^k - रम् भाग २, २ : ९^l; -रान् हिगृ २, १७, २^l.
 अपरा(र-अ)पहाण- [हारण^m]-> णा- पा, पाग ४, १, ४.
 अपरा(र-अ)अ-विकारⁿ - राणाम् अप ६१, १, २५.
 अपरा(र-अ)र्ध^o - र्धात् बौश्रौ १, १६ : १५; २०; १७ : १; ४, ८ : ११; ५, १० : १३; १४ : ११; १२; १३^o; ६, ११ : १०; ८, ३ : २४; १२ : ४; १४ : ५; २० : १; २०, १३ : १०; ११; -र्धे

बौश्रौ ६, ११ : ७; ९, ११ : १२; १९, २ : १९; वैश्रौ १२, १६ : १; आमिष्ट १, ७, १ : ७; २, ५, ८ : २६; बौगृ २, ७, २०.
 अपरार्ध^o, र्ध्या- -र्धः बौश्रौ १२, ५ : ३; -र्ध्यम् बौश्रौ १, ८ : १०; -र्ध्याः बौश्रौ १२, ८ : ५; -र्ध्यान् आपश्रौ १, २, २.
 अपरा(र-अ)ङ्क^p - पाग २, ४, ३१; -ङ्कः वाधूश्रौ ४, २८ : ३; †भागृ १, १२ : ९; ११; आपध २, १६, ५; हिध २, ५, ५; -ङ्कम् बौश्रौ २४, २० : ५; पागृ ३, ४, ८; -ङ्कस्य कौसृ २२, ४^q; -ङ्के आश्रौ २, २, १; ६, १ X X; शांश्रौ; अप १, २०, १^p.
 आपराङ्कि^r - पा ४, ३, २४; -कः माश्रौ ४, ३, ४४; -कम् विध २०, ४१; -के आश्रौ ४, ७, ४; बौश्रौ ९, ६ : २२; १२ : १७; २६, २७ : ५; ८; -केन बौश्रौ ९, १२ : ९.
 आपराङ्कि^r - की बौश्रौ ६, २४ : ५; -कीभ्याम् आपश्रौ ११, ४, १; ५, ८; १६, ३५, ११; १७, ४, ८; बौश्रौ ६, २३ : ११^s XX; माश्रौ; -कीम् माश्रौ २, २, २, १; ६, २, ४, २१; -क्यः आपश्रौ २२, ३, २; -क्याम्

माश्रौ २, २, १, १३; -क्यौ माश्रौ ६, २, १, १; ८; २२; २८; ४, १५; वैश्रौ १४, ४ : १७; १८; हिश्रौ १२, १, १.
 अपराङ्क- पा ४, ३, २८.
 अपराङ्क [ङ्के]-तन- पा ४, ३, २४.
 अपराङ्कि^r - कः अप्राय ६, ८.
 अपराङ्कि^r - कीभ्याम् बौश्रौ ६, २१ : २४.
 अपराङ्के-सवन^t - नम् वाधूश्रौ ४, २८ : ८.
 अपरे-द्युसः (ः) शांश्रौ ३, १८, २०; १४, १०, ३; माश्रौ ५, २, २, २; वैश्रौ २०, २ : १३; हिश्रौ १६, ७, ६; लाश्रौ ८, ४, ५; वैताश्रौ ४, २५; १५, ५; आगृ २, ५, १; वैगृ ६७ : ४; वैगृ २, २ : २२; ४, ३ : ५; हिपि ९ : १; कप्र ३, ४, ९; कौसृ २२, २१; २३, १३^u; २५, ३२^u; ३०, १८; ७२, २५; आपध २, १७, १२; हिध २, ५, ४१; पा, पावा ५, ३, २२.
 अपरो(र-उ)त्तर^v - रस्मिन् वैश्रौ १४, ८ : ४; -रे काश्रौ ८, ५, १३; अप ६०, १, २.
 √अपर्य पा ३, १, २७.
 अप √रम् > अप-र(त>)ता^w - ताः या ९, ८.
 अ-पर-योग^x - गम् आपध १, १७, २०; हिध १, ५, ५२.

a) विप. (पितृ-) । उस^a. । b) पाभे. वैप १ साकंनिपेभ्यः कौ २, ११७८ टि. द्र. । c) अस. उप. समा- (वर्ष-) । d) तु. पाका., भाण्डा. प्रसृ. अपसम- इति, पागम. [पक्षे] अवरसम- इति च पाभे. । e) अव्य. अस्तातिः प्र. उसं. (पा ५, ३, २९) । f) द्वस. । g) कस. । h) नाप. ([आमाद्-] अग्नि-विशेष-) । i) षस. । j) विप. ([पश्चिम-कोण-] इन्दु-) । बस. । k) कर्मधारयवत्त्वं द्र. (पा ८, १, ११) । l) सप्र. ०रम् <> ०रान् इति पाभे. । m) तु. पाका. । n) कस. > षस. । o) नाप. । तस. (पा २, २, १) । p) ०हैनम् इति पाठे मंधिरार्षः (तु. अप १, २१-२२, १) । q) विप. । तत्रभवीयौ यथायथं ठक्-ठनौ प्र. उसं. (पा ४, ३, ११) । r) विप. (प्रत्रयोपसद्-) । s) अपरा^o इति मूको. । t) नाप. । सस. । u) नाप. (वायव्य-कोण-) । बस. । v) विप. (ओषधि-) । w) विप. (शुक्र-) । तस. > बस. ।

अ-परशु-वृक्कण, षण्णा^a- षण्णम्
आपश्रौ १६, १०, १; हिश्रौ ११,
३, १८; -ष्णाः वाश्रौ २, १, २,
२५; वैश्रौ १८, ७ : १७; -ष्णाम्
काश्रौ १६, ४, ३८; माश्रौ ६, १,
३, २८; २९.

१अपरस्तात् २अपर- द्र.

२अ-परस्तात्^b शुप्रा ३, २६.

३अपरा^c- रा^d भाट् १, २२ : १३;
हिग् २, ३, ३.

†अ-परागत- -तम् आश्रौ ५, १९, ५;
बौश्रौ ८, १४: १२; हिश्रौ १३, ८,
३३; जैश्रौ १९: ३; तैप्रा ११, १२.

अ-पराची^e- -चीः वाधूश्रौ ३, ५८ :
९; -च्यः वाधूश्रौ ३, ५८ : १२.

अ-पराजय^f- -यः अप ३५, १, १७.

अ-पराजित, ता^g- -तः शाश्रौ ८,
२४, १†; अप ५, ३, ५; ३२, १,
१३; ३६, २३, १; ६८, ४, ४;
-तम् आपभं १, १३, ४; -ता
आपश्रौ १७, ४, २†; बौश्रौ १०,
४६ : ४५†; माश्रौ ६, २, १,
१६; वाश्रौ २, २, १, ११†; वैश्रौ
१९, ४ : २३†; हिश्रौ १२, १,
३७†; अप १८, १, १७; अशां
१६, १; चाअ ४० : ८†; -तात्
कौस् ३८, १७; ३०; ६४, ६;
-तानि अप ३२, १, १३; -ताम्
आश्रौ ८, १४, १३; कौस् १७,
९; २२; ६८, ३८; अप ८, १,
२; १८^h, १, ११; ६८, ३, ९;
६९, ६, २; अशां १७, ४; ऋप्रा
१५, १; -तायाम् आश्रौ ८, १४,

१२; वैताश्रौ २४, १०; आग्
१, ७, १९; ३, ८, ३; ११, २;
४, १, १; ६, १४; कौग् २, ७,
१९; ३, ८, २; १०, ७; शाग् २,
१२, १; ४, ६, २; ६, २, ३; गोग्
१, ३, १०; ११; अशां १८, ५;
१९, ६; -ते अप २१, ४, ३;
-तेन अप ३७, १६, १; -तैः कौस्
१३९, ७; अत्राय ६, ९^h; अप
१७, २, ८†; ४६, २, १.

अपराजित-गण^h- -णः अशां १८,
५; -णेन अप ३३, १, १०.

अपराजित-इशमीⁱ- -म्याम् अप
१८^h, २, ६.

अपराजिता(त-अ)भिमुख^j- -खः
वैताश्रौ २७, ९; कौस् ६१, ११;
६७, २६.

अप^k√ राध्, अप^kराध्नुतात् बौश्रौ
१२, १२ : १४.

†अपराध भाशि ४९; †अपरा-
त्स्यति बौश्रौ १२, १२ : १५;
†अपरास्सीः आपश्रौ २१, १९,
१४; बौश्रौ १६, २२ : ३; हिश्रौ
१६, ६, ३६; अपाराधम् बौश्रौ
१८, २९ : १४.

†अप-राद्ध- -द्धः वाध २०, २८^l.

अप-राध- -धः वाध १६, ४^h; ५;
शंघ ३९२; या १, १६; -धम्
वैश्रौ २, १० : १९; अत्राय ५,
३; शंघ २६०; ३२९; विध ३,
९३; ५, १९; -धस्य मीस् १,
३, २५; -धान् बृदे ५, ८२;
-धानाम् विध ५, १९३; -धे

शाश्रौ २, ७, ६; काश्रौ ७, ५, ९;
वाध २०, १; बृदे ५, ८३; मीस्
६, २, १८; -धेषु आपध १, ८,
२८; विध ५, १९४; हिध १,
२, ११६.

अपराधा(ध-अ)नुरूप- -पम्
विध ३, ९१.

अप-राधय^k- (> आपराधय- पा.)
पाग ५, १, १२४.

अप-राधिन्- पाग ३, १, १३४.

अप-राध्नुव(त् >)न्ती- न्त्यौ सु
२, २.

अ-पराभाव- -वाध वैश्रौ ८, १ : ३.

अ-परिकाण्ड-ता- -तया निस् ७,
३ : ११; १३.

अ-परिक्रामत्- -मन् हिश्रौ २, ३, ४७.

अ-परिक्रामम् काश्रौ ३, ५, ४.

अ-परिक्षिप्य आमिग् २, ५, ८ : ८.

अ-परिगणन- -नम् पावा ३, २, १; ६,
१, ६.

अ-परिगणित- > त-त्व- -त्वात्
पावा ६, १, ७.

अ-परिगृहीत- -तम् आपध २, १०,
५; हिध १, ४, ५; -ते वैश्रौ ९,
४ : ६; १०, ३ : ३.

अ-परिग्रह- -हः वाध १०, ६; बौध
२, ६, १८; -हे पा १, ४, ६५.

अ-परिचित- -ते आपशु ४, ३.

अ-परिच्छिद्य हिशु १, ३६.

अ-परिजात- -ते आग् ४, ४, २५.

अ-परिज्ञात- -ते शंघ २८०.

अ-परिणत-वयस्^l- -यसः वाध
११, १७.

a) विप. (समिध्-). । तस. उप. तृस. । b) तस. उप. अव्य. । c) नाप. (जरायु-). व्यु. ! । d) सप्र. पाग् (१, १६, २) २अवरा- इति पांभे. । e) विप. (धाव्या-ऋच्-). । तस. । f) तस. उप. भाप. । g) नाप. (ईशान-दिश- [तु. आश्रौ ८, १४, १२; १३ प्रमृ.], इष्टका- [माश्रौ.], महाशान्ति- [अशां.], तदाख्य-मन्त्रगण- [अप ५, ३, ५ प्रमृ.]) । शिष्टं वैप १, परि. च द्र. । h) कस. । i) विप. । पत्र. । j) सप्र. आपध १, २४, २१ गौध २२, ७ प्रतिराद्धः इति, मनुः ११, ८० प्रतिरोद्धा इति च पांभे. । k) नाप. । कर्तरि शः प्र. उंसं. (पा ३, १, १३८) । l) विप. । तस. > बस. ।

अ-परिणीय आग्र १,७,१४.
 अ-परिणेत्य-> ण्य-त्व- -त्वात्
 मीस् ८,४,२८.
 अ-परि-दश^a- -शेन जैश्रौका ७९.
 †अ-परिदाकृत- -तान्^b आपमं २,
 १३,११; आमिष्ट २,१,३: १८;
 भाग्य १,२३: १०.
 अ-परिनिर्मित^c- -त विध ९८,५१.
 †अ-परिपर^d- -रेण आपथौ १२,१७,
 ४; १३,२,८; ११,१; हिश्रौ ८,
 ४,४६; ९,१,१९; ३,३६.
 अ-परि-पू(त>)ता^e- -ताभिः वीध
 २,१०,३८.
 †अपरिप्लुत्^f- -प्लुता आपथौ १२,
 ११,१०; हिश्रौ ८,३,३१.
 अ-परिभाष्य- -प्यम् पावा १,१,६९.
 अ-परिभिन्दत्- -न्दन् वीश्रौ ४,
 १: २१.
 १अ-परिमाण- > ण-विस्ता(स्त-
 आ)चित-कम्बल्य^g- -ल्येभ्यः
 पा ४,१,२२.
 अपरिमाण-विस्ता(स्त-आ)दि-
 ग्रहण^h- -णम् पावा १,१,७२.
 अपरिमाणा(ण-अ)र्थ- -र्थम् पावा
 ३,३,३६.
 २अ-परिमाणⁱ- > ण-त्व- -त्वात्
 मीस् ११,१,३३.
 अपरिमाण-दी(क्षा>)अ^j- -क्षाः
 आश्रौ १०,१,१२.
 अ-परिमाणिन्-> ण-त्व- -त्वात्
 पावा २,२,५.
 अ-परिमा(द्व>)त्क^k- -क्कम् द्राश्रौ
 ८,३,३२; लाश्रौ ४,७,११.

अ-परिमित, ता- -तः आश्रौ ४,१५,
 ३; काश्रौ; -तम् शाश्रौ १५,
 २७,१; काश्रौ १,३,२१;
 आपथौ, -तस्य आपथौ ५,२०,
 १२; -ता काश्रौ ५,३,१४;
 काठश्रौ ४९; वीश्रौ २४,२४: ५;
 भाश्रौ; -ताः आश्रौ ४,२,१३;
 ९,११,२२; १०,५,१६; शाश्रौ;
 -तान् आश्रौ ७,११,३;
 वीश्रौ १०,४७: २XX; वैश्रौ;
 -†तानाम् आपथौ १,५,५;
 वीश्रौ २४,२३: १२; भाश्रौ
 १,५,१; वैश्रौ ३,४: १३; हिश्रौ
 १,२,४७; -तानि काश्रौ २१,३,
 ६; वीश्रौ ६,१: ७; १५,१४: ८;
 १६: १; -ताभिः आश्रौ ७,१२,
 ५; काश्रौ २१,३,३२; आपथौ;
 -ताम् आश्रौ १०,५,१६; काश्रौ
 २,६,१; ५,३,२९; आपथौ;
 -ताय कौस् १२२, २; -ते
 आपथौ २,१,६; ५,४,४; काठश्रौ;
 -तैः वीश्रौ ६,३: १०; २२, २:
 ११; भाश्रौ.
 अपरिमित-काम- -मस्य आपथौ
 १६,२०,१०.
 अपरिमित-कृत्वस् (:) आपथौ १०,
 २४,१३; २०, ४, ६; वैश्रौ १२,
 १७: १९; हिश्रौ १४, १, ४३;
 वीश्रौ २,९, ४; वीध २, ५, १२;
 १०, ३६.
 अपरिमित-गुण^l- -णान् अप ४,
 २,९.
 अपरिमित-त्व- -त्वात् आश्रौ १०,

५,१५.
 अपरिमित-दक्षि(णा>)ण^m- -णस्य
 आपथौ १०,२६,४.
 †अपरिमित-पोषⁿ, पा^o- -षाय कौस्
 ३, १४; ७४, १८; -षायै अप
 १८³, १, ११; कौस् २४,
 २०.
 अपरिमित-शर्करा^p- -राभिः वैश्रौ
 १८,१६: २४,२५.
 अपरिमित-स्तोम^q- -मेन काश्रौ
 २५, १३, ३७.
 अपरिमिता(त-आ)ल्लिखि(त>)
 ता^r- -ताः काश्रौ १६,४, २५.
 अपरिमिता(त-अ)न्न-धन^s- -नाः
 आमिष्ट ३, ७: २१; २३.
 अपरिमिते(ता-द)ष्ट(का>)क^t- -कः
 काश्रौ १७,७,२८.
 अपरिमितो (त-उ) द्वि^u- -द्विम्
 आपथौ १५, २, १४^m; १६, ४, ७;
 हिश्रौ २४, १, १५^m; -द्वीन्
 वैश्रौ १३, ३: १२^m.
 अ-परिमित्य आपथौ १६, २०, ११;
 हिश्रौ ११, ६, ६२.
 अ-परि-यज्ञ^v- -ज्ञम् शाश्रौ १५, १, ९.
 अ-परि-वत्स(र>)रा^w- -रायाम्
 दिध १, ३, ४०^p.
 अ-परिवर्ग^x- -र्गम् आपथौ २, ११,
 ३; वीश्रौ ४, ४: २६; १४, १९:
 २७; भाश्रौ २, ११, २; हिश्रौ १,
 ८, २८.
 अ-परिवर्तमान- -ने निस् १०, १०:
 ११.
 अ-परिवर्तयत्- -यन् गोगृ३, १०, १०;

a) विप.(वासस्-)। तस.> बस.। b) सप्र. हिग्र २,३,७ परिजाकृतान् इति पाभे.। c) विप.। तस.।
 d) वैप १, परि. च द्र.। e) पाठः ? उपरि इति शोधः (तु. वैप १,९३८ ० टि., वीश्रौ १८,३६ : ७ परिप्लुना इति
 पाभे. च)। f) द्रस.। g) षस. पूप. द्रस.>बस.। h) बस.। i) विप.। बस.। j) कस.।
 k) उप. भावे अः प्र. उंसं. (पा ३,३,१०४)। l) विप.(इष्टिका-)। बस. पूप. किवि.। m) विप.। बस. उप. द्रस.।
 n) सप्र. °द्विम् <> °द्वीन् इति पाभे.। o) विप.। तस. उप. मलो. बस.। p) सप्र. °रिवत्सरा <>
 °रिसंवत्सरा इति पाभे.।

द्राघ ३, ३, ३०.
अ-परिवाद्य- -द्यः गौघ ८, १२.
अ-परिवासित- -त्तम् बौध्रौ ९, ५ :
 ८; -तेन भाध्रौ ११, ७, ४; हिध्रौ
 २४, ३, १.
अ-परिवीत- -तम् बाध्रौ १, ६, ३,
 २४.
अ-परिवीयमाण- -जेतु शोध्रौ ६,
 ९, ९.
अ-परिवृत्त- -तानाम् गौघ १२, २५.
अ-परिवेष्टित-शिरस्- -राः शंध्र
 ५२.
अ-परिश्रित- -त्ते आपध्रौ ३, ९, ३;
 माध्रौ ३, ८, ४; वैध्रौ ७, ९ : २;
 हिध्रौ २, ५, ८; ९.
अ-परिपिञ्चत्- -ञ्चन् आपध्रौ ८,
 १६, ५; १५, १४, ४; १७, १२,
 ५; भाध्रौ ११, १४, ५; माध्रौ १,
 १, २, १५; ७, ६, ५३; ६, १, ५,
 २०; २, ४, ८; बाध्रौ १, ७, ४,
 ५४; वैध्रौ ९, १० : ३; १३, १६ :
 ११; १९, ६ : ५३; हिध्रौ ५, ४,
 ८७; १२, ३, १२.
अ-परिसंवत्सर, रा^१ -रान् आपध्र
 २, १५, २; -रायाम् आपध्र १,
 १०, ११.
अ-परिस्तीर्ण- -र्णोः आपध्रौ १, १५,
 ३; बौध्रौ १, ४ : ३.
अ-परिस्पन्दिन्- -न्दी आमिष्ट २,
 ७, १० : १५.
अ-परिस्तु(त>)ता- -ताभिः बौध्र
 २, १०, ३८.
अ-परिहरत्- -रन् वैध्रौ २०, २९ : ६.
अ-परिहार्य- -र्यः गौघ ८, १२.
अ-परिवृत्त- -त्ताः पा ७, २, ३२.

अपरी- २अपर- द्र.
अ-परीक्षित- -तम् विध ३, ८८; २९,
 ४.
अ-परीण(ह>)त्क^१ -त्कात् वाध्रुध्रौ
 २, ११ : १३.
अ-परीण(द्व>)द्धा- -द्धायाम्
 वाध्रुध्रौ ४, ११२ : ३.
अ-परीत^१ -त्तासः बौघ १, ३, ३५.
अ-परीत्य- -त्यः काध्रौ १७, ४, ५.
अ-परीवृत्त^१ -न्तः ऋप्रा ९, २२.
अपरु^१, अपरुध्मः अप्रा ३, २, २७.
 अपरुणद्धि वाध्रौ ३, ४, ३, ३;
 अपरुण्वन्ति वाध्रौ ३, ४, ३, ४;
 अपरुणध्मि वाध्रौ ३, ४, ३, ३.
 अपरुण्वीत आपध्रौ ५, २५, ५;
 ९, ३, ८; वाध्रौ १, ५, ३, १५;
 अपरुण्व्यात् भाध्रौ ५, १६, १४;
 ९, ४, १०; हिध्रौ ६, ५, २१; १५,
 १, ५६; वाध्र ८, ४; ^१अपरुण्व्युः
 आपध्रौ १२, १६, ५; २१, २१;
 १९, २०, ५; हिध्रौ २२, ३, २२.
 अपरु^१ अरुधन् अप्राय २, ९.
 अपरु^१ (अरुधन्) कौस् ८०, १८.
^१अपरुण्व्येत बौध्रौ १७, १४ : ६;
 वाध्रुध्रौ ३, ४९ : १; हिध्रौ ९, ८,
 ३२; ^१अपरुण्व्यताम् आपध्रौ
 १४, ६, १६; बौध्रौ १७, १४ : ४;
 हिध्रौ ९, ८, ३२; अपरुण्व्येत
 बौध्रौ २८, १ : १; वैध्रौ १,
 १८ : ३.
अपरुद्ध- -द्धः आपध्रौ १२, १६,
 ५१; २१, २११; १९, २०, ५; बौध्रौ
 १३, १४ : ६; २१ : ३; १७, १४ :
 ४; ६१; वैध्रौ ११, १ : २; हिध्रौ
 ९, ८, २२; २२, ३, २२; -द्धम्

आपध्रौ १९, ४, ११; हिध्रौ १०,
 ७, ६; १७, ४, २४; -द्धस्य काध्रौ
 १९, १, ३; -द्धान् बौध्रौ २८,
 २ : ५४.
अपरुद्ध-राजन्य^१ -न्यस्य काध्रौ
 २२, ९, १६.
अपरुध्य आपध्रौ ९, २, १; २०, १३,
 ५; बौध्रौ २९, १० : २१×४; वाध्रौ.
अपरुध्य- -ध्यः वैध्रौ १, १८ : ३.
अपरुध्यमान- -नः आपध्रौ १९,
 २०, ५; ६; बौध्रौ १३, १४ : ६;
 २१ : ३; हिध्रौ २२, ३, २२;
 २३; -नम् आपध्रौ १९, ४, ११.
अपरुद्ध- -द्धुः आपध्रौ १९, २०, ६;
 १४; बौध्रौ १३, २१ : ४; हिध्रौ
 २२, ३, २४; २८.
अपरुध- -धः बौध्रौ २९, १२ :
 ११.
अपरुधिन्- पाग ३, १, १३४.
अपरुध्य-> थोर्ध्या (ध्य-अ) व-
 गध्र^१ -धम् बौध्रौ १७, ४८ : ४.
अपरुध्पा^१ -पम् निस् ४, १३ : २;
 ९, ४ : ९; १४; -पा निस् ३,
 ९ : २१; ४, १२ : ३०; ३२.
अपरुध्प-सहस्र^१ -स्राणाम् याधि
 २, ९९.
अपरे-द्युस्(ः) २अपर- द्र.
अपरोक्ष^१ -क्षे पा ३, २, ११९; पावा
 ३, २, १०८.
अपरोवरीयस्- -यांसि निस् ३,
 १ : ५.
अपर्ण, पर्ण^१ -र्णम् भाध्रौ ७, १, ८;
 हिध्रौ ४, १, १५; -र्णया आपध्रौ
 ७, १२, ६; -र्णाम् आपध्रौ १,
 १, ९; हिध्रौ १, २, ९.

a) विप. । तस. > बस. । b) विप. । बस. । c) पाभि. पृ २५६ p द्र., ० टि. समासश्च शोध्वः ।

d) वैप १, परि. च द्र. । e) कस. । f) नाप. (कर्म-विशेष-) । उस. उप. करणे अच् प्र. । g) विप.
 (नाम-विभक्तिः, वृष्ट-?) । प्रास. वा बस. वा । h) षस. पूष. नाप. =अपभ्रंश- । i) = प्रत्यक्ष- । तस. ।

अप(प-ऋ)र्तु^a - तु^b गौध ३, २१; -तौ
वाध १३, ३८; आपध १, ११,
२७; ३१; ३५; हिध १, ३, ७७;
८१; ८६; ८९; गौध १६, १०.
आपर्तुक^c - कः कौस् १४१, ३४.
अपर्तु-दैव - वम् कौस् १४१, ३२.
अप(प√ऋ)र्ध, अप...आर्धनीति निस्र
६, ११ : १३.
अ-पर्यग्नि-कृत - तम् माश्रौ ५, २,
५, ६.
†अ-पर्य(रि-अ)न्त^d - न्ताः कौस्
१३५, ९.
अ-पर्यवेत - ते बौश्रौ २४, १५ : २;
-तेषु हिश्रौ १६, ८, १५.
अपर्यवेत-अत^e - तः कौस् ४६, १८.
अ-पर्या(ण >)णा^f - णाः बौश्रौ ६,
९ : ८; २१, १० : २४; २५;
२२, ३ : २४; २५; २६, २१ : ५.
अपर्याण-यजुस्^g - जुः बौश्रौ २२,
८ : २६.
अ-पर्याप्य कौस् ४६, २४.
अ-पर्याय-विधान^h - नात् मीस्
११, १, १६.
अ-पर्यावर्तमान - नः माश्रौ २, १,
३, १०; कौस् ४६, १५; ४७, ३०.
अ-पर्यावर्तयत् - यन् आपश्रौ २,
१०, ६; ६, ३०, १; ७, २६, ११,
माश्रौ; -यन्तः आपश्रौ २०, ५,
११; बाधश्रौ ३, ७५ : ३.
अ-पर्युप्य आपश्रौ १२, ८, २५.
अ-पर्युपित - तम् बौध ३, १, १९.
अ-पर्वन्ⁱ - पाग ४, २, ६३; -वर्णि
हिश्रौ ७, १, १०.

आपवर्णिक - पा ४, २, ६३.
अपर्वा(र्व-अ)शनि-निर्घोष^j - षाः
अप ५०, ९, २.
अ-पर्व-विलोप^k - पः निस्र ९, ४ :
१३; १०, ३ : ४; -पाय निस्र
१०, ३ : १४.
अ-पर्शु - श्रुं पा ६, २, १७७.
अप√लप् > अप-लापिन्^l - पी
विध ५, १११.
अप-लाप्य - पावा ३, १, १२४.
अप√लप् > अप-लापिन् - पा ३, २,
१४४.
अ-पलपूलित - तम् बौध १, ६, १५.
‡अपवगाहम् हिश्रौ १७, ५, २६.
अप√वच् > अप-वक्तृ - क्ता बौश्रौ
८, १९ : १२.
अप-वत् - २ अप- द.
अप√वद्^m, अपवदति निस्र ९, १० :
१३; १०, ६ : ३; अप्रा १, ३, १४;
अपवदन्ति शाश्रौ १३, १६, १;
अपवदते वैश्रौ २, १० : १९;
अपवदेयुः पागृ ३, १०, २२.
अपवादीत् कौस् ४९, ७९.
अपोद्यते ऋप्रा ११, ७, ९.
अपवाद्यते ऋप्रा ११, ३४.
अप-वाद - दः आश्रौ १, १, २२;
निस्र ५, ४ : २; अप्रा १, १, ४;
२८ⁿ; २, ५; ९; ३, १; २; ८;
२, १, ९; ३, १६; ३, १, २; ५;
७^o; ३, ५; ६; ८; पावा ३, १,
४५; ४, ३, १५४; ८, २, १;
-दस्य पावा ३, १, ६; २, ११०;
३, १३२; ७, ४, ८२; -दाः

आपध १, २८, २; हिध १, ७,
३८; पावा ६, १, १००; -दात्
ऋप्रा १, ५३; ६०.
आपवादिक^p - कानि अपर्
२ : ७.
‡अपवाद - दात् पावा ४, १,
८५.
अपवाद-त्व - त्वात् पावा १, १,
४६; २, ३, ४६; ३, १, ७.
‡अपवाद-त्व - त्वात् पावा
३, १, ४५; ४, २, ९२; १०४^r.
‡अपवाद-निवृत्त्य (ति-अ)
र्थ - र्थम् पावा ४, २, १०४.
अपवाद-निशामन - नम् लाश्रौ
६, ९, ५.
अपवाद-न्याय^s - येन पावा १,
३, ९.
अपवाद-प्रसङ्ग - ऋः पावा १,
१, ५६; ३, २, ११०; ८, ३, १३,
अपवाद-बाधना(न-अ)र्थ - र्थम्
पावा ३, १, १३४.
अपवाद-विज्ञान - नम् पावा ३,
३, २०.
अपवाद-विधाना(न-अ)र्थ - र्थः
पावा ४, ३, ६६.
अपवाद-विप्रतिषेध - धात्
पावा १, १, ५४; ३, २, १०८.
अपवाद-विषय - ये पावा ३,
३, १२; ४, १, ८३; ३, १४१.
अपवाद-समावेश - शान् पावा
५, १, ११९.
‡अपवादसमावेशा(श-अ)र्थ -
र्थम् पावा ५, १, १२०.

a) वैपश्, परि. च द्र. । b) वा. क्वि. । c) विप. (अध्याय-) । तत्रभवीयष् ठञ् > कः प्र. (पा ४,
३, ११; ७, ३, ५१) । d) विप. । बस. । e) नाप. (द्वीरापः [तै १, २, ३, ३]) । मलो. कस. पूप. = अपरिया^q
(दु. सा [तै.]) । f) तस. उप. त्स । g) तस. । h) सस. > षस. । अपूर्वाशनि^r इति संस्कृतः शोधः ? ।
i) गस. उप. विनुण प्र. उस्. (पा ३, २, १४५) । j) पा १, ३, ७३ परामृष्टः द्र. । k) विप. (सूक्त-) । तदस्य
प्रयोजनमित्यर्थे ठञ् प्र. । l) मलो. कस. ।

अप-वादिन्^१ - दिभिः वाध १६, ३५.
 अप-वाद्य ऋप्रा १, ४७; ६, १७.
 अपो(प-उ)द्य ऋप्रा ४, ५०.
 †अप/वध्, अप...वध्यासम् हिथ्रौ १, ६, ६८; अप(वध्यासम्) काथ्रौ २, ६, १४; आपथ्रौ २, १; माथ्रौ १, २, ४, १६; वाथ्रौ १, ३, १, ४६; शुभ्र १, ८२.
 अपावधीम् बौथ्रौ ६, २१ : १९; २०; वाधुथ्रौ ४, ६० : ७; ९.
 अप-पवमान^२ - ने काथ्रौ ११, १, २७.
 अपवरक-भाण्ड^३ - ण्डे शोध १८१.
 अप-वर्ग- प्रभृ. अप/वृज् द्र.
 १अप-वर्ण^४ - णैः^५ माशि १५, ६.
 २अप-वर्ण^५ - णम्^६ पाशि २५.
 अप/वह्, अप...वह आथ्रौ १, २, ११.
 †अप-वाह^६ - > ण-तस (:) बौथ्रौ १७, १४ : १०; हिथ्रौ ९, ८, ३४.
 अप-चा(त>) ता^७ - तायाः कौस् ३१, ६.
 अप-वाद् - प्रभृ. अप/वद् द्र.
 अप/विच्, अपवेचेक्ति कौस् ६१, २९.
 अप/विज् > †अप-विजमा (न >) ना- ना इत्य १२, १; अयं ३ : ५४.
 १अ-पवित्र^८ - > अपवित्री/कृ > अपवित्रीकृत- ते अप ४२,

२, ९.
 २अ-पवित्र^८ - त्रे माथ्रौ १, ७, ५, १२; वाथ्रौ १, ७, ३, ५; -त्रेण आपथ्रौ ८, ९, ११; बौथ्रौ २०, १६ : २७; २१, ३ : १७.
 अप/विध्, अपविध्यति बौथ्रौ १८, ४४ : १७; कौस् १८, १७; २८, ८; ३९, १०; वाध २, ३५; अपविध्यन्ति आम्रिद्य ३, ५, ६ : २५; बौपि १, ५ : १२; हिपि ३ : १३; अप-विध्यसि बौथ्रौ १८, ४४ : १८; अप...विध्यताम् या ९, ४०†; अपविध्यत् माथ्रौ १, ५, ३, ९; वाथ्रौ १, ४, २, १९; दाथ्रौ १३, २, २; लाथ्रौ ५, २, ६; वाध १, २३; २१, २७ : अप-विध्येयुः दाथ्रौ १२, १, १९; लाथ्रौ ४, ९, १३.
 अप-विद्ध - ढः वाध १७, ३६; बौध २, २, २३; विध १५, २४; -ढम् बौध २, २, ३१.
 अप-विध्य कौस् ३०, १७; बौध २, ६, २८.
 अप-वी(णा>)ण- पा ६, २, १८७.
 अप/वृ(वरणे), अप...वृणे लाथ्रौ ९, ९, १९†.
 †अप/वृ(आच्छादने), अ(प>)पा-वृधि ऋप्रा ७, ५५; तैप्रा ३, १२.
 अपवृणुते, अपावृणुते ऋत ४, ७, ८; अपावृणोः आम्रिद्य २, ३, ५ :

२०.
 अप...ववार या २, १७; अपा-वृथाः बौथ्रौ ६, ६ : २४; अपावः, अप...आवः, अप...वः ऋप्रा १, ९९.
 अप-वारित- (> अपवारितिन् - पा.) पाग ५, २, ८८.
 अप-वार्य- -र्याः शंध ३०७.
 अ(प>)पा-वृण्वान- -नाः दाथ्रौ ६, २, २१; लाथ्रौ २, १०, २०.
 अ(प>)पा-वृत^९ - -†तम् ऋप्रा ९, ६; -ते आपध १, ११, १८; हिध १, ३, ६९^क.
 अपावृत-द्वार^१ - -रे काथ्रौ ७, ६, ११; १०, ४, १०.
 अपावृत-शिरस्क^१ - -स्कः आथ्रौ ५, २०, ६.
 १अ(प>)पा-वृत्य माथ्रौ २, १, ४, १६; वैथ्रौ ५, ३ : ९; बौपि १, २ : ६.
 अप/वृज्, अपवृज्यते हिथ्रौ १, १, २९; निम् ३, ८ : १८; अपवृज्यन्ते आपथ्रौ २१, २३, २; हिथ्रौ १६, ८, ५; अपवृज्येत मीस् ६, ८, २२; ११, ४, १६.
 अपवर्जयति आपथ्रौ १, २५, १; २१, ३, २; माथ्रौ २, २, १, २३; हिथ्रौ १, ६, ३९; ९, ८, १४; १२, ६, २५^म; १६, १, ३६^न; अपवर्जयेत् विध २२, ५७; माथ्रौ ६, १७, ४; मीस् ५, २, १०.

a) गस. उप. धिनुण् प्र. उसं. (पा ३, २, १४२)। b) तस.। c) नाप. (अपवरकनिमित्त-पात्र-)। कस.। पूष. अर्थः व्यु. च ? आकर-भा^० इति अपरार्कः (।याज्ञ. १, १९०] तु. संस्कृतुः टि.)। d) प्रास.। e) सपा. णैः <> णम् इति पाभे.। f) विप.। मलो. बस.। g) वैप १, परि. च द्र.। h) नाप. (।विर्गालतवसस्नेहा-] गो-)। मलो. बस. उप. भाप. <√ वन् 'संभक्तौ' (तु. BW. B.; वैतु. दारिलः अपगतायाः इति पठन् यनि. अर्थ संकेतुक इति?)। i) विप.। बस.। j) उपसृष्टधात्वर्थनिषेधपरः गतिः। k) 'वृत्ते इति पाठः ? यनि. शोधः (तु. आपध.)। l) कस.। m) उप^० इति पाठः ? यनि. शोधः (तु. भाष्यकारः)। n) 'वर्ग^० इति पाठः ? यनि. शोधः (तु. सप्र. आपथ्रौ २१, ३, २)।

अप-वर्ग^१ - -र्गः आपथ्रौ १७, ८, ४;
 १२, १४, ८; बौथ्रौ १२, १० :
 ५६; २२, ८ : ९; वैथ्रौ १२, ५ :
 ४८; हिथ्रौ ११, ६, ५४; २३, ३,
 ६; आपगृ १, ६; १०; हिपि
 १३ : ९; १२ : ३; अप ४५, १,
 २; बौशु ६ : २१; मीस् ११, १,
 २७; २८ : ३, २४; -र्गम् बौथ्रौ
 २५, १३ : १; -र्गात् शांथ्रौ ८,
 १५, १; माथ्रौ ३, ६, १; हिथ्रौ
 १४, २, १८; द्राथ्रौ २, २, ५३;
 लाथ्रौ १, ६, ५०; आगृ १, २३, २३;
 अप ३०^२, २, १; -र्गौ शांथ्रौ ५,
 ४, ७; कौगृ ५, ८, १; कागृ ४३,
 १०; गोगृ १, १, ६; द्रागृ १, १,
 ३; पा २, ३, ६; ३, ४, ६०.
 अपवर्ग-पर्यन्त- -न्तस्य १, १.
 अपवर्ग-वाद्^b - -द्: वैथ्रौ १८,
 १६ : ४४.
 अपवर्गवादा(द-अ)वचन^b -
 -नात् हिथ्रौ ११, ७, १०.
 अप-वर्ज्य लाथ्रौ १०, २, ११.
 अप-वृक्त- -क्ते मीस् ४, ४, १७; ९,
 ३, १०.
 अपवृत्ता(क्त-अ)र्थ-त्व- -त्वात्
 मीस् ११, ३, १८; १२, २, १२^c.
 अप-वृज्य आपथ्रौ ५, २४, ९; माथ्रौ
 ५, १६, ९; हिथ्रौ ३, ५, २८; वैज्यो
 १२.
 अप√वृत्, अप...अवृत्सत शांथ्रौ
 ५, १३, ३^d.
 †अप...वर्तय आपथ्रौ ११, ७,
 २; हिथ्रौ ७, ५, ११.

अप-वृत्त, ता- -त्तासु आपथ्रौ २०,
 ७, ५; हिथ्रौ १४, २, १८; -क्ते
 आपथ्रौ १६, १४, १; १८, १९,
 १४; २४, ४, २२; बौथ्रौ २, ७ :
 २२; वैथ्रौ.
 अपवृत्त-कर्णन्^e - -र्मा काथ्रौ १,
 ३, २८; -र्माणः आथ्रौ ६, १३,
 १७.
 अपवृत्ता(क्त-अ)र्थ, थ्रौ^e - -र्थः,
 -र्थार्थे भागृ १, २० : ४.
 अप-व्या(वि-आ)√हृ, अपव्याहरेत्
 काथ्रौ ३, ३, १३; हिथ्रौ २, २,
 ४^f.
 अप√व्ये, अपवीयते या ६, १२.
 अप√वृज्, अपवृजति आथ्रौ ८, १३,
 ११.
 अ-पश(व्य >)व्या^g - -व्या बौथ्रौ
 २४, २३ : ६; कौगृ १, ११, ४^h;
 शांथ्रौ १, १८, ३^h; कागृ २५,
 २०^h.
 अप-शिरस्ⁱ - -राः माथ्रौ ४, १, ४.
 अ-पशु^j - -शवः बौथ्रौ १७, ११ : १२;
 -शुः आपथ्रौ १, १, ९^k; ६, २१,
 १^h; ७, १२, ६; २६, ८; १०,
 २४, ६^h; †१६, २०, ११; २७,
 ८; १७, १, ९^h; २४, १४, १६^h;
 बौथ्रौ १४, २३ : २८; माथ्रौ ७,
 १, ८; हिथ्रौ १, २, ९; ४, १, १५;
 ५, ३१; ११, ६, ६२^h; ७, ५८;
 २१, २, ५६^h; आगृ ४, ८, ३८^h;
 -शुनि बौथ्रौ १६, १९ : ७^h;
 -शोः काथ्रौ १२, १, ४.
 अपशु-ता- -ताम् आपथ्रौ २, १४, ८;

हिथ्रौ १५, ४, १५; -तायं †शांथ्रौ
 २, ९, ७; ८; वाधूथ्रौ २, ८ : ३.
 अ-पशुक^l - -कानि बौथ्रौ २६, १७ : ३^h.
 अ-पशु-कुणप^m - -पेन वाधूथ्रौ ३,
 ४४ : १९.
 अ-पशु-बन्ध-याजिन्ⁿ - -जिनः^l
 हिपि १२ : १०; -जिनाम्^l
 बौपि २, ३, १४.
 अ-पशु-याजिन्ⁿ - -जिनाम् आमिगृ
 ३, ७, ४ : ५^l.
 अप√शुच् (वीत्सो) > ∅अप-शोश-
 चत् - -†चत् शांथ्रौ ४, २, ९;
 आपथ्रौ १४, २२, १; २; बौथ्रौ.
 अप-शूद्र^o - -द्राणाम् मीस् ६, १, ३३.
 †अ-पश्वा-दध्वन्^p - -ध्वा अप्राय
 २, ७; अज १२, ५५.
 †अ-पश्वा(त् >)द्-दध्वन्^p -
 -ध्वने^q आपथ्रौ १४, २९, २;
 -ध्वा^k आपथ्रौ ७, २८, २;
 माथ्रौ १, ८, ६, २२.
 अ-पश्यत् - -श्यन् आपथ्रौ ५, १९, ५;
 आपथ्रौ १६, ३, १४; हिथ्रौ ११,
 १, १५; ४०; वैध २, ९, ४;
 -श्यन्तः आथ्रौ ५, २, २०; बौथ्रौ
 १४, ७ : १४^h; २६, ७ : १७;
 वाधूथ्रौ ४, १०२ : ६^h; ८.
 अ-पश्यन्ती - -न्तीम् वृद ५, ७४.
 अप√श्रि, अपश्रयेत् द्राथ्रौ ५, २,
 ७; लाथ्रौ २, ६, ३; निसू १,
 ११ : १५.
 अप√श्रिष् > अप-श्रिष्ट- पाग ६,
 २, १४६.
 ?अपश्यीत¹ आपथ्रौ १, ३२, १६.

a) गस. उप. भाव. । b) पस. । c) 'वृत्ता' इति कांसं. । d) पामे. वैप १, ७१४ । द्र. ।

e) विप. । वस. । f) विप. । तस. । g) सप्र. अपशूनि <> अपशुकानि इति पामे. । h) विप.
 (पशु-) । वस. > पस. । i) सप्र. 'शुबन्धयाजिनः' <> 'शुबन्धयाजिनाम्' < > 'शुयाजिनाम्'
 इति पामे. । j) विप. (द्विज-) । वस. । k) व्यु. पामे. च वैप १, परि. च द्र. । l) पाठः? (तु.
 पृ ११० n टि.) ।

अप/ष्ठा (<स्था>) अप-ष्ट^a- पा
८, ३, ९७.

अप-ण्टु- पाउ १, २५.

१-३ अपस्- ✓*अप द्र.

†अप-सं/वृत्, अप (संवर्तयति)
आश्रौ ८, १२, ३; अप ३२, १, १;
साअ १, ४५१; अत्र १९, १२;
उनिस् ५: १२.

अप-सं/सृप्, अपसंस्पर्त गौपि
१, २, १११.

अप/सद् > अप-सदन^b- ने अप
१८^३, १, ९१.

अप-सम- अपरसन- द्र.

अप-सर्पत्- अप/सृप् द्र.

अप-सर्या- अप/सृ द्र.

अप-सल^c- -लम् कौगृ ५, २, ९; -लैः
वौश्रौ १, २: १७; २०: १८XX;
आगृ २, ५, २; आग्निगृ ३, ४, ३:
२; ५, ४: ७^d XX; वौपि.

अपसल-वक्रो (क-उ) दक^e- -कम्
जगृ २, ५: २.

अपसल-वृ (त् >) त्ता^f- -त्तया
आग्निगृ ३, ८, १: २८^g.

अपसला (ल-आ) वृ (त् >) त्ता^f-
-त्तया वौपि १, १५: ७^h; -त्ताम्
वौपि १, १४: ४.

अपसलावृत्त-रज्जु- -ज्जुम्
आग्निगृ ३, ८, १: ४.

अप-सलवि^c पागृ ३, ७, २; द्रागृ ३,
५, १६^d.

अपसलवि-स् (ष्ट >) ष्ठा^f- -ष्टया
काश्रौ २१, ३, ३१^h।

१अप-सव्य- अप द्र.

२अप-सव्य¹- -व्यः अप ५१, ३, १;
-व्यम्^k काश्रौ ४, १, ९; १३, ३,
२७; २५, १३, ३३; वौश्रौ; वौपि
३, २, ३¹; -व्या कप्र ३, ६,
४; -व्यानि वौष १, ५, ११०;
-व्ये अप ५३, ६, २; -व्येन^k कप्र
२, ८, १३: ३, २, १२; अप २८, २,
४; -व्यैः^k भागृ २, २७: ६; १३.

अपसव्य-करण- -णम् कप्र १, २, ८.

अपसव्य-ना^m- -ना: अप ६४, ६, १०.

†अप/सदच्, अप² (सश्चिरे) आश्रौ
१५, १४, ६; वौश्रौ ९, १४: १३;
भाश्रौ ११, १४, ७; वैश्रौ १३,
१६: १३; हिश्रौ २४, ६, ७.

†अप/सिध्, अपसेधति शाश्रौ १२,
१६, १ⁿ; अपसेध आपमं २,
१५, ५^o; आग्निगृ २, ४, १: १८^o;
कागृ ११, ३^o; भागृ २, ३: १२^o;
हिगृ १, २७, ७^o; कौस् ८८, १;
या ९, १३; अप...सेध आश्रौ
७, ६, ७; ऋप्रा ७, ३४; अप
(सेध) आश्रौ ७, ६, ७; †अप
(सेधत) साअ १, ३९७.

०अप-सेधत्- -†धन् आश्रौ १६,
६, ७; वैश्रौ १८, ४: १०; हिश्रौ
११, १, ७३.

अप-सीर- पा ६, २, १८७.

†अप/सू (प्रेरणे), अप...सुवे आपश्रौ
१६, १६, १; वैश्रौ १८, १४: ५;
अप (सुव) काश्रौ २१, ४, २२;
गुअ ४, ५०.

अप/सृ, अप...सरत् या ११, ४७[†].
अप-सर्या^p- -र्या वौश्रौ २, ५: ४[†].

†अप/सृप्, अपसर्पत् आग्निगृ २,
१, ३: ३; अपसर्प वैगृ ५, ३:
९; अपसर्पत् आग्निगृ ३, ४, १:
१८; वौपि ३, २, ९; अपसर्पत्
आग्निगृ ३, ८, १: २६^q; वौपि
१, १५: ५.

अप-सर्पत्- -र्पति द्राश्रौ ७, १, ११.

अप/स्कन्द्, अपस्कन्द अम १, ५१,
५[†].

अप-स्/कृ पा ६, १, १४२; पावा
१, ३, २१.

अप-स्-कर^r- -रः ऋत ४, ६, १; पा
६, १, १४९.

अपस्तम- ✓*अप द्र.

अप/स्था > †अप-तस्थिवस्-
-स्थिवः छुत् १, २: ११; ४:
३१; ८: ३२; २, ५: १९.

अप-स्थान^s- -ने वैश्रौ २१, १८: ५.

a) नाप. (अङ्कुशाग्र- [तु. अपाष्ट-]) । गस. उप. करणे कः प्र. । b) नाप. । गस. उप. अधिकरणे ल्युट् प्र. ? । c) = अ-प्रदाक्षिण- । अस. वा. क्वि. (तु. अव-सलवि-) । d) अपसव्यम् इति क्वचित्कः मूको. । e) विप. (शमशानार्थस्थल-) । कप्र. > वम. । f) विप. (रज्जु-) । कप्र. । g) सप्र. °लवृत्तया <> °लावृत्तया <> लविसृष्टया <> माश १३, ८, १, १९ °लविसृष्टाभिः इति पाभे. । h) यतु रुद्रस्कन्दः नाप. (पितृ-तीर्थ-) इत्याह, तद्विमृश्यम् (तु. माश १३, ८, १, १९) । i) °लवि सृ^o इति पाठः ? यनि. शोधः (तु. माश १३, ८, १, १९) । j) विप. । प्रास. । k) वा. क्वि. । l) R. अपसलैः इति । m) विप. (द्विज-मृग-) । उस. । n) पाभे. वैप १ परि. शौ २०, १३५, १३ टि. द्र. । o) पाभे. वैप १ परि. अपवृद्धश्च शौ ३, १२, ६ टि. द्र. । p) गस. उप. भावे शः प्र. यगागमश् च (पावा ३, ३, १०१) । q) उपसर्पे इति पाठः ? यनि. शोधः (तु. वौपि.) । r) नाप. (रथाङ्ग-) । गस. उप. कर्मणि अप् प्र. (तु. पाका.) । s) = वर्जित-स्थान- । प्रास. ।

अप-स्फिग- पा ६,२,१८७.
 अप √ स्मृ > अप-स्मार^a- > र्नि-
 -री अप ३५, १, १०; शंघ
 ३७७:२:१२; विध ४५, १८.
 √ अपस्य √ *अप् द.
 अप √ स्यन्द, (अप)स्यन्दताम्
 भाशि ४०१.
 अपस्या-, अपस्यु- √ *अप् द.
 ?अपस्यु:^b मागृ १, २५, १०.
 अपस्यू- √ *अप् द.
 अप √ स्तु, अपास्तवत् वाधूथ्रौ ४,
 २९:२०.
 अप-स्तावयत्- -यन् जैगृ १,४:१७.
 अप √ स्वन > अप-स्वान^c- -ने
 आपध १,११,३०^d.
 अप-स्वप्- -मम् मागृ २,१४,७.
 अपस्व(त् >)री- √ *अप् द.
 अप √ हन्, ऋअपहते बौथ्रौ १४,१०:
 १८; २९, ६:१४; वाधूथ्रौ ४,
 ६०:८; ११; अप...हते आथ्रौ
 ८,१३,१४; शांथ्रौ १०, २०,२;
 अपहन्ति वाधूथ्रौ ४, ८८:९;
 ११; आमिगृ २,३,१:२१; आपध
 १,२७,११; बोध १,८,१३; २,
 १,४१; ४२; हिध १,७,३६; अप-
 हत: अप्राय १, ५; अप...घ्नते
 आथ्रौ ८,१३, १४; शांथ्रौ १०,
 २०,२; आपथ्रौ २३,३,८; १४,
 ८; अपहंसि कौस् ६८, २६१;
 ऋअपहन्महे^e आपथ्रौ १६,१६,१;
 वैथ्रौ १८,१४:४; अपहन्म: काथ्रौ

१५,७,६; अपहन्त पागृ २,७,७;
 ऋअपहन्तु पागृ ३,३, ६६; मागृ
 २,८,६; कौस् १७,८; ऋअप...
 हन्तु आपथ्रौ ५,४, १; बौथ्रौ २,
 ६:७; हिथ्रौ ३, ३, ७; ऋअप-
 जहि कौगृ १,११,४^f; शांथ्रु; ऋअप
 ...जहि आपथ्रौ १,२२, २; २,
 २,४; बौथ्रौ; आपमं २, १७,
 २६^h; आगृ २, ३, ३^h; कौगृ
 ४,४,९^h; शांथ्रु ४,१८,१^h; पागृ
 २, १४,४^h; १९^h; मागृ २, १:
 १४^h; हिगृ २, १६, ८^h; कौस्
 ७०, १^h; ऋअप (जहि) काथ्रौ
 २,४,२५; आपथ्रौ; आपगृ १८,
 १२^h; ऋअप...हतम्, ऋअप-
 हतम् आपथ्रौ २१,१२,९; वाथ्रौ
 ३,२,२,३६; वैताथ्रौ ३४,१; हिथ्रौ
 १६, ५, ३^h; ऋअप...हतम् बौगृ
 ४, २,१४^h; आपमं १, ६,१२;
 अपहत जैगृ १, २२:२३; २,५:७;
 ऋअपहन्म अप ३७, १, ४;
 अपाहत शांथ्रौ १४, २७, १; ५;
 ८; ११; अपाहन्त वृदे ४, २२;
 ११४; अपाहन् या २, २६१;
 अपाघ्नत बौथ्रौ १६,९:३१; जैथ्रौ
 ५:७; २१:७; अपाघ्नन् वाधूथ्रौ
 ४, ८८:३; ४; अपहनीत बौथ्रौ
 १४, १०:१६; अपहन्तु: बौगृ
 ३,५,८; अपहन्त्याम् शांथ्रौ १४,
 २७,१; कौगृ ३,१२,१९.
 अपहन्त्यते बौपि १, १४:१९.

अप-घन^k- -न:पा ३,३,८१; -नम्
 कौस् ८३,१४.
 अपघनी^l- -नीम् जैगृ २,३:८१.
 अप-घात- -तात् आथ्रौ ४,१५,९.
 ऋअप-घत्- -घन् माथ्रौ ६, १, १,
 १३^g; लुस् १, २:२०; आपमं १,
 ९,९; मागृ २, ३१:६; हिगृ १,
 १८,५; सात्र १,५१०^g; २,५६३
 अप-जिघांसमान- -न: शांथ्रौ १४,
 २७,१; -नस्य शांथ्रौ १४, २२,
 २३; ३९,८; १०.
 अप-हत,ता- -ऋत: आपथ्रौ २, १,
 ५; २,१^h; बौथ्रौ; -ऋतम् काथ्रौ
 २, ३, १७; ४, १९; आपथ्रौ;
 -ता आपथ्रौ ६,६,८१; वृदे ६,
 १०६; -ता: आथ्रौ २, ६,
 ९१; शांथ्रौ ४,४,२; काथ्रौ.
 अपहत-तम(स्क >)स्का^m-
 -स्का या १२,१२७.
 अपहत-पाप्मन् - -प्मा वाधूथ्रौ
 ३, ३:२; आपमं २, १०, ६;
 बौगृ १,२,४४१; मागृ २,२४:
 १५१; वैगृ २, १६:७१; हिगृ
 १, १३,१३१; अप्राय १, ५;
 -प्मानम् आथ्रौ ८, १३, १४;
 शांथ्रौ १०,१९,२.
 अप-हति- -त्यै आपथ्रौ ५, १, ७१;
 बौथ्रौ २६, १०:२३; जैथ्रौ.
 अप-हत्य शांथ्रौ १४,२८,१; माथ्रौ.
 अप-हन्तुम् अप ६९,५,४.
 अप-हन्यमान- -ने अप ३७,१,१.

a) नाप. (रोग-विशेष-)। गस. उप. करणे घञ् प्र. (तु. शक.)। b) पाभे. वैप २, ३खं. अपः तैत्रा २,७,१७,३ टि. द.। c) गस. उप. घञ् प्र. उसं. (पा ३, ३,६४)। d) सप्र. अप<>अव^o इति पाभे.। e) प्रास.। अप:स्व^o इति Knauer ?। f) पाभे. वैप १ परि. अपमृज्महे शौ ४, १७,६ टि. द.। g) सप्र. अपहन्तु <> अवहन्तु <> कृणोतु इति पाभे.। h) पाभे. वैप १ परि. अव...जहि शौ १०, ४, ३ टि. द.। i) (अप) हन्तम् इति पाठः? यनि. शोधः (तु. ऋ १, १३२, ६)। इति। j) अप...हन्त् इति द्वितीय-संस्करण पाठः शोभाईः। k) नाप. (अङ्ग-)। गस. उप. करणे अप् प्र.। l) स्त्री. ङीष् प्र. उसं. (पा ४,१,४१)। m) विप.। बस.।

अप-हल- पा ६, २, १८७.
 अप-हस्त^a - स्तेन जैगृ २, २ : ७;
 ३ : १२.
 अप-हस्तक^b - कान् कौगृ २, ७,
 २३^०; शांगृ २, १२, १०.
 अप√हा(गतौ), अप(जिहीते) शांश्रौ
 १०, १०, ४; ऋअ २, ७, ७१; ३,
 २७.
 अप√हा (त्यागे), अपजिहीत आपघ
 २, १९, ५^{२०}.
 अप-हाय आपश्रौ १५, २, ११; भाश्रौ
 ११, २, १९; वैश्रौ १३, ३ : ४;
 १८, ४ : ६; ११; हिश्रौ २४,
 १, १३.
 अप√ह, अपहरति माश्रौ १, ३, १,
 १०; वाश्रौ ३, ४, ५, २२; अप-
 हरन्ति विध ७२, ६; अपहरामि
 सु ११, ४; अप...हरेत् आपश्रौ
 १०, २६, १६; हिश्रौ ७, २, ८०;
 अपहरेत् वौश्रौ ९, १८ : ६; २८,
 ७ : ३; माश्रौ ३, १, १०; ६, ३;
 आगृ १, ६, ७; विध ३, ६२; ८३;
 १७, १७; अपहरेयुः आपश्रौ ९,
 २४, ९; १४, १५, १४; काश्रौसं.
 अपजहाते वाधूश्रौ ४, ६४ : ५;
 अपजहारे वृदे ३, १३२; अपजहुः
 वृदे ८, २४.
 अप-जिहीर्षमाण- -णः^० हिध १, ६,
 ६९^१; २, ५, १९७.
 अप-हरण- -णात् द्राश्रौ १४, १,
 १६; -णे शंध ३९५; विध ५,
 ८५; ५२, १३.
 अप-हरत्- -रन् शंध ३२५; विध

५, ८१.
 अप-हर्ष- -र्ता विध ५, ८३; ८८.
 अप-हार- -रः विध ५, १३०; -रे
 विध ५२, ६.
 अप-हारक- -कम् वाधूश्रौ ४, ६४^५: ८,
 अप-हार्य- -र्यः आपघ २, २८, १,
 हिध २, ६, १; -र्यम् विध ५,
 १८५.
 अप-हत्- -तम् विध ५, ८९; ५२,
 १४; -ते शांश्रौ १३, ६, १;
 आपश्रौ; -तेषु वौश्रौ २९, ३ :
 ३; वैश्रौ २०, १९ : २३.
 अपहत्-भास- -सम् या ६, ३६.
 अपहता (त-अ) गिन- -गिनः
 आम्रिगृ ३, ९, १ : १; वौपि २,
 ५, १; -ग्नेः वौश्रौ ३, ३ : २०;
 २४, १९ : ९; वैश्रौ १, २० :
 १५.
 अप-हृत् जैश्रौ ८ : २१; ९ : १४;
 वाध २६, ६; शंध ३९५^२; विध
 ४४, ४४; वृदे ७, १८.
 अप√हु, अप...हुमहे वौश्रौ १८,
 २६ : १७.
 अप-ह्व- -वः पागृ ३, १४, १५;
 वृदे १, ५६; ५७; -वे पा १, ३,
 ४४.
 अप√हु > अप-ह्व^६ - -०र पागृ १,
 १६, २४^१.
 अप-पाक^७ - -कः शुप्रा ४, ७४.
 २अ-पाक^१ - -कः मीसू १०, २, १.
 अपा(प-आ)√कृ, अपाकरोति काश्रौ
 २२, ५, ७; आपश्रौ; हिश्रौ
 १७, ३, १२^१; अपाकुरुतः वैश्रौ

८, ९ : १२; हिश्रौ ५, २, १९;
 अपाकुर्वन्ति आपश्रौ २३, १२, ७;
 हिश्रौ १६, ८, २१; २४; १८, ४,
 २४; अपाकरोत् वैश्रौ ३, ९ : १;
 अत्र ९, ८; अपाकुर्वीत लाश्रौ ९,
 ६, १६; अपाकुर्यात् काश्रौसं
 ३६ : ५; वौश्रौ २०, १ : ६२;
 भाश्रौ १, १५, ४; लाश्रौ ८, ७, ५;
 ८; अपाकुरुः आश्रौ १२, ६,
 १६.
 अपाकरिव्यन्ति वाधूश्रौ २,
 ११ : ३.
 १अपा-करण^८ - -णौ वाश्रौ ३, २,
 ६, ४३.
 २अपा-करण^९ - -णम् काश्रौ २२, ५,
 १९; २५, ४, ३९; -णात् भाश्रौ
 ८, १, १०; ४, ४; ११, ८.
 अपा-कर्तासं (ः) आपश्रौ ४, २, ३;
 भाश्रौ ४, ३, ४.
 अपा-कृत- -तम् वाधूश्रौ ४, ९८ :
 २२; -ताः आपश्रौ ९, १, २३;
 वौश्रौ; -तानाम् माश्रौ १, १, १,
 १६; हिश्रौ १, २, १५; -तासु
 काश्रौसं ३२ : ७; -तेन काश्रौ
 १९, १, २२; -तेषु आपश्रौ ४,
 २, ६.
 अपा-कृत्य आपश्रौ ८, ९, ११; १२, ९,
 १, २४; ३४; ४, १२; १४; काठश्रौ.
 अपा-क्रिया- -याम् वृदे ७, ६०.
 अपा(प-आ)√गच्छ, अपागच्छेत्
 अप्राय ६, ८.
 अपा(प-अ)घ^{१०} - -घेन कौसू ३६, २२;
 ८२, ४.

a) नाप. । प्रास. । b) विप. > नाप. । बस. । c) °स्तकाम् इति पाठः ? यनि. शोधः । d) सप्र. अप^०
 <>अभि^० इति पाठे. । e) पाठे. पृ २४७ ० टि. द्र. । f) उ० इति पाठः ? यनि. शोधः (तु. उत्तरं स्थलम्) ।
 g) विप. । गस. उप. कर्तरी कृत् । h) वैप १ द्र. । i) तस. उर. भाप. < √पच् । j) उपा^० इति पाठः ?
 यनि. शोधः (तु. तां १७, ११, २) । k) विप. (दर्भ-). । गस. उप. कर्तरी करणे वा ह्युट् प्र. । l) उप. भावे
 ह्युट् प्र. । m) नाप. (सूक्त-विशेष- [शौ ४, ३३]) । मत्वर्थायस्य छस्य लुक् (पा ५, २, ५९; ६०) ।

अपा(प-अघ)घाⁿ -वा: काश्रौसं
 ६: ७^b; आग्नि १, २, १: १५;
 बौध ३, १, २४; -घानाम्^b
 काश्रौसं ६: ७; -घामि:^b
 आपश्रौ १९, १५, १७; काश्रौसं
 ६: ७; ९; ७: १; बौधौ १९,
 ८: ७; हिश्रौ २३, ३, ३६;
 -घाम् आग्नि ३, ५, ५: ७^c.
 आपाघ^d -घम्^b काश्रौसं ६:
 १०; ७: १.

अपाधा-वत् बौधौ २८, ४: २९.

अपाघाटलिका^e -का: ० आपश्रौ २१,
 १७, १६; १९, ३; हिश्रौ १६, ६,
 २१.

अपा-जान- आपा ✓ हन् द.

अ-पाङ्क्त^f - > ङ्क्तो (ङ्क्त-उ) देश-
 श्राद्ध-भोजन^g -ने काध
 २७४: ४.

अ-पाङ्क्त्य^h -या: शंध २०१;
 सुधप ८४: ५.

अ-पाङ्क्त्यⁱ -ङ्क्तयानाम् गौध १७,
 १६; २१, ११.

अपा(प ✓ अ)च्, ङ्क् > ङ्क् अपा(प-अ)
 च्, ङ्क् -पाक् आश्रौ ७, ४, ४;
 ८, ३, २०; शाश्रौ; -पाङ् या
 १४, २३०; -पाञ्च:, -पाञ्चम्
 अप्रा ३, ४, १.

ङ्क् अपा(प-अ)च- चै: १ अप्रा ३, ४, १.

अपाञ्चयति¹ या १४, २३^२.

अपा(प-अ)ञ्स् - पा ६, २, १८७.

अ-पाटित^m -तम् कप्र १, १०, २.

अ-पाणिग्रहणⁿ -णे वाग् १४, २७.

अ-पातक^o -कानि वाध १६, ३६;
 गौध ५, २५.

अ-पातक^p -कानि बौध ४, ६, ८.

अ-पात्र^q - > ञ्त्व- त्वम्, -त्वात्
 मीस् ४, १, ३४.

अपात्र-वर्षिन्^r -र्षी विध ३, ५४.

अपात्र-संकर^s -रात् वाध १५, १२^r.

अपात्रौ ✓ कृ > ञ्त्री-करण- णम्
 विध ४०, १; २; -णेषु विध ३३, ४.

अ-पाद्^t -पात् जैश्रौका ८४^r: सु २२,
 १; २३, १; २५, ६; अप १८^r,

१०, १^r: शुभ्र ३, २५३^r: ङ्क् अ
 २, १०; १०, ११; साञ् १,
 २८१^r: -पादम् सु २३, २.

अ-पाद^u -दम् वाश्रौ ३, २, ५, ५३.

अपा(प-आ) ✓ दह्, अपादहेत् शाश्रु ३,
 १४, ५.

अ-पादहस्त^v -स्ते अप ७२, ६, २.

अपा(प-आ) ✓ दा (दाने), अपादन्ते
 आपश्रौ २, ८, ५; १०, २६,

१०; १५; १५, ८, ११^r: माश्रौ;
 अपाददीत आपश्रौ १४, २३,
 ११; माश्रौ ५, १, ८, ११.

अपा-त्त- -त्तम् आपश्रौ ३, ७, ५;

१०, १३, ९; २३, ९; माश्रौ ३,
 ६, ९; ४, १८, ४; वैश्रौ १२, ११:
 १३; हिश्रौ २, ४, २७; ६, ३,
 ११; -त्ता: आपश्रौ ५, ५, १०;
 -त्तानाम् आपश्रौ १२, १०, ५;
 हिश्रौ ८, ३, १२.

अपा-दान^w -न: आपश्रौ २, २, १;

-नम् पा १, ४, २४; पावा १, ४,
 १; २३; -ने पा २, ३, २८; ३,
 ४, ५२; ७४; ५, ४, ४५; पावा ३,
 ३, २१; -नेञ्च: माश्रौ ४, १, १२.

अपादान-ग्रहण- णम् पावा २,
 ४, ८३.

अपादान-संज्ञा- -ज्ञा पावा १,
 ४, २४.

अपादान-स्थान- -नम् वैश्रौ ४,
 ५: ४.

अपादाना(न-आ)दि- -दीनाम्
 पावा १, ४, २३.

अपा-दाय आपश्रौ २, १, ५; ६, १;
 ५ × ५; माश्रौ.

अ-पादा(द-आ)दि^x -दौ शुभ्रा २,
 १७; पा ८, १, १८.

अ-पादा(द-आ)दि-भाज्^y -
 भाजि ऋप्रा २, ६४.

अ-पादा(द-अ)न्त^z -न्त: ऋप्रा ७,
 २०.

अ-पादान्तीय^{aa} -येषु ऋप्रा ४, ४५.

a) नाप. (इष्टिगण-विशेष- [तु. तैत्रा ३, १२, ३-४]) । मलो. बस. । b) ञ्क् इति लैवि. सन् शोधाहः ।
 c) = अश्रौषधि-विशेष- । सप्र. अपाघाम् <> अपारकाम् इति पाभे. । d) विप. (हविस-) । तस्येदमीयः अण प्र. ।
 e) व्यु. पाभे. च पृ २४६ m, n द. । f) = अ-पाङ्क्त्य- । नाप. । तस. उप. पङ्क्ति- + तत्रभवीयः अण प्र.
 (पा ४, १, ८६) । g) बस. पूष. षस. > त्स. । h) = अ-पाङ्क्त- । उप. तत्रसाधवीयः ढण प्र. उंसं. (पा ४, ४,
 १०४) इति विशेषः । i) = अ-पाङ्क्त्य- । उप. ण्यः प्र. उंसं. (पा ४, ४, १०१) इति विशेषः । j) वैप १, परि. च
 द. । k) वा. क्रिवि. (तु. पराचैः) । l) पाठः ? । अपाङ् चैति इति वा अपाङ् चयति इति वेति R.N. टि. ।
 m) विप. । तस. । n) तस. । o) विप. । बस. । p) विप. । उंस. । q) बस. । r) सप्र. गौध २०, ४
 अवकरात् इति पाभे. । s) विप. (गरुड-, सपे- प्रभृ.) । वैप १ द. । t) नाप. (मन्त्र-विशेष- [आपश्रौ.],
 मृत्स्न- [माश्रौ.], संज्ञा-विशेष- [पा, पावा.]) । भावकरणापादानेषु ह्युट् प्र. । u) तस. > षस. । v) विप.
 (ऋकार-) । तस. उप. षस. > उंस. ।

अपा(प-अ)ध्वन्- पा ६,२,१८७.
 अपा(प/अ)न् (प्राणने), अपानति
 वेताश्री ५,१६^३; अत्र ११,४^३;
 अप्रा ३, ३, २१^३.
 अपानति आपश्री २४,११,१८;
 १३,७; वीश्री; वाधूश्री २,११ :
 ७^३; ऋषिपानिहि भाग १,२० :
 ५; अपान्यात् वीश्री १०, ४६ :
 ३९; १४,१० : २३; वैश्री.
 अपा(प-अ) न- पाश्री १, १६,
 १३^०; -०न् आश्री ५,२, २;
 -नः शाश्री २, ९, ८; ऋषिपश्री
 २, ८, ६; १२, १९, ५; १३, ३,
 ३; १४, ३०, ५; वीश्री; -ऋषि
 आश्री १,४,९; ५,२,२^३; शाश्रीः
 आपश्री ५,१५,६^३; -नाः आपश्री
 ६,२५,१०^३; वाधूश्री ४,१५ :
 ११; -ऋषि आपश्री १६,३२,
 ३; -ऋषि आपश्री १, ७, २^३;
 आपश्री १,२१,६^३; २,२०,५;
 ५,५,२; १२, ७, ७^३; १३, ९^३;
 १८, २०^३; २४,१४,१३; वीश्री
 ७, ६; ३३^३; भाश्री; माश्री १,२,
 २,२९^३; २, ३,४, ३०^३; द्राश्री
 ११, १,९^३; लाश्री ४, १,८^३;
 वेताश्री २६,१^३; वीश्री ३,८,१०^३;
 -ने आपश्री २४,११,१३; वीश्री;
 -नेन आपश्री २४, १४, ९^३;

पाश्री १, १९, ४; -नेषु वाधूश्री
 ४,१५:१२;१५; १७;१९.
 ऋषिपान-दा^३- -दाः आपश्री
 १७, ५, १६; १३,६; माश्री ६,
 २, ४, २०; वैश्री १८,६ : ७२;
 १९, २१ : १६; द्विश्री ११, ८,
 १०; १२,४,९.
 अपान-पा^३- -पाः वीश्री ७,६ :
 २९^३.
 अपान-भृत्^३- -भृत्ः आपश्री
 १६,३२,२; २०,२०,१०; वीश्री
 १०,३५ : १५; वाश्री ३, ४, ५,
 ५^३; वैश्री १८,२० : ६३; ६५;
 द्विश्री ११, ८,६; १४, ४, ३९;
 चाश्री ३९ : ७; -भृत्म् द्विश्री
 ११, ८,७; -भृत्भिः वीश्री १०,
 ३५ : २५; १४,२२ : १५.
 अपा(प-अ)नत्- -ना आपश्री १२,
 ८,६.
 अपा(प-अ)न्य आश्री ६, १०, १
 xx; भाश्री.
 अपांनपात्- प्रभृ. ✓*अप् द.
 १अ-पाप^३- -पे शुप्रा २,१३.
 ऋषिअ-पाप^३- -०प आश्री ३, ३, १;
 -पः शाश्री ५,१७,१०.
 अ-पापक^३- -कम् या ४,२.
 अपा-मार्ग- प्रभृ. अप✓सृज् द.
 ऋषिअपा(प-अ)✓मे > अपा-

मित्य^३- -त्यम् आश्री २,१८,
 १३^०; -त्यानि^३ आपश्री १३,
 २२,५; वीश्री ४, ११ : १३.
 अपां-पति- प्रभृ. ✓*अप् द.
 अपाय- अये (प/इ) द.
 अपा(प-अ)✓यच्छ, यम् (यमने),
 अपायच्छाय वाधूश्री ३,८८:१८.
 अपा-यम्य आपश्री १, ४; १२^३; ४,
 ५xx; वीश्री.
 अपा-यम्यमान- -नः वाधूश्री ३,
 ८८ : १३; २१; २५.
 अपा(प-अ)✓यत्, अपायातयति
 माश्री १,३, २, १६; ७,१, १८;
 २१; २,३,३,७.
 अपा-यात्य माश्री १,८,५,८.
 अपा-यत्-, °यती-, °यवत्- अये
 (प/इ) द.
 अपार् (प/अ) > १अपा (प-अ)र्ण-
 -र्णम् या ९,२९.
 अ-पार,रा^३- -०र विघ १८, ६०;
 -रम् सु ९, ४; निघ ३, ३०;
 -ऋषि या ६,१७.
 ?अपारका^३- -काम् वीपि १,४:६.
 अ-पारलौकिक^३- -के पा ६,१, ४९.
 अपा(प/अ)र्ज्ञ > अपा(प-अ)र्जित-
 -तम् या ५,१२.
 २अपा(प-अ)र्ण^३- -र्णः या ३,२; -र्णम्
 या ९,८.

a) अपानिति टति c. शोधः विमृश्यः । b) °नित्य इति पाठः? यनि. शोधः । c) तु. सप्र. माश्री ११,
 ८,३,६ । d) पाभे. वैप २,३३^३. प्राणम् तैत्रा १,२,१,२४ टि. द. । e) पाभे. वैप १ व्यानाः मा १७,७१ टि. द. ।
 f) पाभे. वैप २, ३३^३. प्राणाय माश्री १, ८, १, १४ टि. द. । g) पाभे. वैप १ परि. अपानाय तै १, १, ६, १
 टि. द. । h) पाभे. वैप १ परि. अपानाय तै ३,२,३,१ टि. द. । i) वैप १, परि. च द. । j) विप. । उस.
 उप. < ✓पा [रक्षण] । k) नाप. (इष्टका-विशेष-) । उस. । l) तस. । m) नाप. (देवानां शमितृ-विशेष- [तु.
 मै ४,१३,४ यत्र वि-पाप- इति पाभे.]) । n) विप. । बस. । o) °त्यम् इति पाठः? यनि. शोधः (तु. टि. वैप १
 परि.) । p) पाभे. वैप १,११३२ j टि. द. । q) विप. (अरण्य-) । गस. उप. कर्तरि क्त > नः प्र. (पा ८,
 २,४४) । r) =ओषधि-विशेष- । पाठः व्यु. च? । अप° इति वा आप° इति वेति? [तु. C. भू. XI] । पाभे. पृ २६४
 C द. । s) तस. उप. < पर-लोक- । t) विप. ([अ-संबन्ध-] पुत्र-, इरिण-) । बस. । उप. अर्थः व्यु. च?
 (तु. वैप १,३९९ t) ।

अ-पार्थिव- -वः अप ४६, ३, ६१.

अपालङ्क-^a - फि २.

अपा(प-आ)√लम्ब- > अपा-लम्ब^b-
-म्बम् काश्रौ ७, ९, १३; वौश्रौ
७, १५: १४; १७: १८; ८, ४:
२९; ७: २५; १२: ४१; १०,
५७: १७; ११, ६: ३५; १२, ७:
४६.

अपालयत्- -यन् विध ३, ९४.

अ-पा(ल>)ला^c - ला^d ऋअ २, ८,
९१; वृदे २, ८२; ६, ९९;
-फालम्^e आपमं १, १, ९; कौष्ट
१, ८, ६; शांष्ट १, १२, ६; आपमं
१, १, ९^o; काष्ट २५, ९; माष्ट १,
८, ११^o; -लायाः विध ५,
१४१.

अ-पावर्क^f - -कम् शंघ ११६:
५९.

अपा(प-आ)√वृ (संवरणे) > अपा-
त्रियमाण- -णः या ९, १४.

अपा-वृण्वान- अप्√वृ (आच्छादने)
द्र.

अपा(प-आ)√वृत् > अपा-वर्त्य
आपश्रौ २, ६, १.

अपा-वृत्त- -त्ताय वौष्ट १, २, ३३;
४०; ४३.

फिअपा-वृत्त्य कौस् ७१, ४; अत्र
१२, २.

अपा-वृत्त- प्रभृ, १अपा-वृत्त्य अप

√वृ (आच्छादने) द्र.

!अ-पाव्य,व्या^g - -व्याः काष्ट ५१, ६;
-व्यानाम् वौश्रौ १४, ३: २६;
२०, २८: ९; चात्र ३०: २७^h;
-व्यानि आपश्रौ ७, १५, ४;
२०, ११, १६; १७, ४; वौश्रौ
४, ६: २२; १४, ५: ३३; २६,
७: ८; भाश्रौ ७, १२, ६; हिश्रौ
४, ३, ४३; १४, ३, ५५; २२,
१, २०; -व्यैः वेश्रौ १०, १२:
६.

फिअ-पाशⁱ - -शः वौश्रौ १७, ४१:
१०; आपमं २, ७, २६; आमिष्ट
१, ३, ४: ५; १८: ५: ३; भाष्ट
२, २१: ५; हिष्ट १, ११,
३.

अपा(प-आ)√श्रि, अपाश्रयति शांश्रौ
१७, १०, १६.

अ-पावाण^j - -णम् वेश्रौ १२, ४: २.

फिअपाष्ट^k - -ष्टः अप ४८, ११६:
-ष्टात् अप्रा ३, ४, १; शौच २,
९५.

फिअपाष्ट-वत् आपमं १, १७, ९; अप्रा
३, १, ७.

अपा(प√अ)स् (क्षेपणे), अपास्यति
काश्रौ २, ६, ४३; ३, ८, ७; ६,
६, ९; भाश्रौ ७, १३, ७; १४, १०;
१५, ७; आपथ १, १८, ३२; हिथ
१, ५, ९८; फिअपास्य^l आपमं २,

२२, ३; हिष्ट १, १४, ७ⁱ;
अप(अस्य) सात्र १, १०५ⁿ;
अपास्येत् अप १३, ३, ११.

अपा(प-अ)स्त- -स्तम् वाध १७,
३७.

अपा(प-अ)स्य शांश्रौ ५, १३, ३;
विध २३, ३७.

अपा(प√आ)स्, !अपाध्वम् कौस् ८२,
२११.

!अपास्यात् विध ५, १०७.

अपा(प-आ)√हन् > अपा-ह्वान-
-नाः शांश्रौ १३, ११, ४.

अपा(प-आ)√ह, अपाहरेयुः आमिष्ट
३, ४, ५: १०.

अपा-हृत- > हृता (त-अ)मि^o-
-मेः वौश्रौ २०, १९: २२.

अपि^m आश्रौ १, ३, १४XX; शांश्रौ ८,
११, १५ⁿ; १२, १५, ३ⁿ;
१६, १ⁿ; वौश्रौ २७, २: २०ⁿ;
लाश्रौ ३, ३, २ⁿ; आपमं २,
१६, १३ⁿ; हिष्ट १, २२, ९ⁿ;
या १, १.

अपि- -पिः पा १, ४, ९६.

अपि-जातु- -न्वोः पा ३, १४२.

अपि-पूर्व^o - -र्वः अप्रा ३, १, ४.

अपि-कक्ष^p - -क्षम् द्राश्रौ १०, १, १०;
लाश्रौ ३, ९, ११; -क्षे द्राश्रौ २,
१, ८; १९; लाश्रौ १, ५, ५; १६;
या २, २८ⁿ; -क्षौ द्राश्रौ २, १,

a) नाप. (ओपधि-विशेष-)। व्यु. ?। b) = अवालम्ब-। नाप. (शकट-पृष्ठभाग-)। गस. उप. कर्तरी

अच् प्र. (तु. वैप २ [माश ३, ३, ४, १३])। c) विप। वस.। d) व्यप. (अत्रि-सुता-)। वैप १ द्र.।

e) पामे. वैप १ परि. ऋ ८, ९१, ७ टि. द्र.। f) नाप. (एकादशरुद्राणाम् अन्यतम-)। तस.। g) नाप.

(देव-विशेष- [चात्र.], मन्त्र-विशेष- [आपश्रौ ७, १५, ४ प्रभृ.], आहुति-विशेष- [काष्ट ५१, ६])। वैप १,

परि. च द्र.। h) अपार्थ्वानाम् इति पाठः? यनि. शोधः (तु. काठ ३०, ९; PW. च)। i) तस.।

j) वैप १, परि. च द्र.। k) सपा. अपा^o <> अवा^o इति पामे.। l) अययास्य इति पाठः? यनि.

शोधः (तु. आपमं.)। m) समुच्चय-संभावनाऽऽदिषु नि.। व्यु. ?। n) वैप १ परि. अपि शौ २०, १२७,

१२ टि. द्र.। o) पामे. वैप १ रजिम् शौ २०, १२८, १३ टि. द्र.। p) वैप १, २९८ C द्र.। q) पामे.

वैप १, ८७८ G द्र.। r) पामे. वैप १ परि. ऋ ४, ४०, ४ टि. द्र.।

९; लाश्रौ १,५,६.
अपि√कृ, अपिकुर्यात् वीश्रौ १४,
२८ : १२; वाश्रुश्रौ ४, ३८ : ६;
१०; वाश्रौ २,१,५,१०^a.

अपि-कुर्वत् -र्वन् निम् ५,१२:१२.

अपि√कृत् (छेदेन), †अपिकृन्तामि
वीश्रौ ४,२ : ३१;३२; ६, १३ :
७; ८; २६ : ४; ५; २१; २२;
२८ : ९; १०; माश्रौ १,८, २,
३; २,२,३,३.

अपिकृतीः^b वीश्रौ १५, ३१ :
२३.

?अपिक्षी मध २३.

†अपि√गच्छ, गम्, अपिगच्छति
आश्रौ २, १६, १९; द्राश्रौ १२,
४, २२; लाश्रौ ४, १२, १६;
अपिगच्छतु आपश्रौ १, १३, १५;
अपिगच्छताम् आपश्रौ २, ८, ६;
माश्रौ २, ८, ७; अपिगच्छत^c आश्रौ
३, ११, ६; आपश्रौ ४, १४, ४;
१३, १८, १; वीश्रौ ३, २० : १७;
माश्रौ ४, २०, ५; हिश्रौ ६, ४,
१४; जैश्रौ ११ : २२; द्राश्रौ ४,
१, ८; आपमं २, ९, १४; वीश्रु १,
२, २९; भाश्रु २, २४ : ४; हिश्रु
१, १३, ४; जैश्रु १, ४ : २५.
अपि ... अगन्महि^d आश्रौ २,
५, ८; कौश्रु ३, ४, ४; शाश्रु ३, ६,
३; अपि ... अगस्महि^e आपश्रौ
१०, २४, २; २९, ३; वीश्रौ ६,
१६ : १०; माश्रौ १०, १६, ३;
२०, ३; हिश्रौ ७, २, ३६; ३,
१९; वीश्रु ४, ४, १०.

†अपि√गा, अग्यगात् आश्रौ ३, १४,
१२; काश्रौ २५, ५, २९; १०,
२०-२२; आपश्रौ ३, २०, ९;
२, १०, २-४; माश्रौ ३, १८, ६;
माश्रौ ३, १, २४; वैश्रौ २०,
१७ : ६; ८^f; हिश्रौ २, ८, ३९;
१५, ३, १४-१६; आपमं २,
१५, १७; कौश्रु १३६, २; वीश्रु
१, ४, ७; अप्राय ६, ५; अपिगुः
या ४, १९.

अपि√गृह् > अपि-गृह्य आपश्रौ
१०, १३, ५; १२, २२, ३;
वीश्रौ.

अपि-गृह्य- पा, पात्रा ३, १, ११८.
अपि√गृ (निगरणे), अपिगिरति
आपश्रौ ३, १९, ७.

अपि√चि(चयने), अपिचिनोति जैश्रु
२, ४ : ७.

अपि√जन् > †अपि-ज^g- -जः
शाश्रौ ६, १२, ६; द्राश्रौ ४, ३,
२^h; लाश्रौ २, ३, २^h.

अपि-जातु- अपि द्र.

अपि√जू > †अ (पि >) पी-जू^h-
-जूवा ऋप्रा ९, २२.

अ-पिञ्जलिⁱ- -लि कौश्रु ५५, ४.

अ-पितृ^j- -पितः शाश्रौ ८, २५, १.

अ-पितृ^k- -ता अप २, १, ५.

अ-पितृक^l- -कस्य आपध १, ११, २;
हिध १, ३, ५९.

†अपि√दह, अपिदहति आपश्रौ १५,
१६, ४; माश्रौ ११, १६, ६; हिश्रौ
२४, ६, १४; अपिदहामि आपश्रौ
१५, १६, ४; माश्रौ ११, १६, ६.

अपि-दग्ध- -ग्धानि आश्रौ ६, ८,
२^l; -ग्धे अप्राय ६, ४.

अपि√धम्, अपिधमति कौश्रु २५,
९.

अपि√धा, अपिधत्ते वाश्रौ १, ३, १,
४२; अपिदधाति काश्रौ ४, २,
३४XX; आपश्रौ; अपिधत्तः माश्रौ
२, ४, १, ९; हिश्रौ ८, ७, ८; अपि-
दधति वाश्रुश्रौ ४, ११ : ६; अपि-
दधे हिश्रौ १३, ३, २४†; †अपि-
दधामि काश्रौ ९, ४, २९; आपश्रौ;
अपिदध्मः वैताश्रौ १४, १†;
अपिदध्यात् आश्रौ ५, ५, ९; ६,
१०; आपश्रौ; वैध ३, ८, २^k.

अपिधीयन्ते निम् २, ११ : १७;
अपिधीयेरन् वीश्रौ १०, ३१ :
५; वैश्रौ १८, १७ : २०.

अपि-दधत् - -धत् आपश्रौ २, १९,
७; माश्रौ २, १७, १४; वाश्रौ
१, १, १, ५२; वैश्रौ ६, ८ : ९;
हिश्रौ २, २, २४.

†अपि-धातवे आमिगु ३, ८, ३ : २;
वीपि १, १५ : ७४.

अपि-घात^l- -नम् काश्रौ ९, १०,
३; वीश्रौ १४, १० : ३५; आपमं;
-ने आपश्रौ १, १४, ४;
वीश्रौ २१, १९ : २४; माश्रौ १,
१४, ९.

अपिधानी- -न्याम् आपध
२, ४, ३; हिध २, १, ५६.

अपिधाना(न-अ)र्थ- -र्थम्
आपश्रौ १, ११, ५; -र्थे हिश्रौ
१, ३, ५५.

a) सप्र. आपश्रौ १६, २०, ३ उपसंनद्येत् इति पाभे. । b) लुङि मपु१ रूपम् । c) पाभे. वैप १
परि. अपीतन शौ १०, ५, २३ टि. द्र. । d) पाभे. वैप १ प्रति. *अपग्रहि मा ४, २९ टि. द्र. । e) वैप १,
२९९ टि. द्र. । f) विप. वा नाप. वा (अग्नि-) । वैप १ परि. च द्र. । g) वैप १, परि. च द्र. ।
h) बस. वा. क्वि. । i) विप. । बस. । j) *दधानि इति कालिसं ? । k) पिद^o इति C. । l) गस. उप.
भावे वा करणे वा ह्युद् प्र. ।

अपिधानी(य>)या- -याः बौग १,२,४०.	१,७; आपगृ १४,११; अपिनयेत् अप्राय ६,३.	१,२३.
अपि-धाप्य कौस् १३,३; २६, २१; ४८,३२.	अ-पिन्वमान ^b - -नैः शांगृ ६,३,७.	अपि/वृ (आच्छादने) > अ(पि>) पी-वृत्- -तः ऋप्रा ९,६.
अपि-धाय आश्रौ ५,५, ११; शांश्रौ ४,१५,८ xx; काश्रौ.	अपि-पक्ष ^c - -क्षम् आपश्रौ १७, १९, ५; वैश्रौ १९, ६ : ६२ ^d ; १२१; हिश्रौ १२, ३, १३ ^d ; जैश्रौ ४ : ४; -क्षे आपश्रौ १७, १२, ११ ^d ; वाश्रौ २, २, ३, १३ ^d ; -क्षौ वौश्रौ १७, २८ : १२.	†अपि/वृज्, अपिवृज्अन्ति ^l आपश्रौ २३, २२, ४; वौश्रौ १४, २२ : ५; वाश्रौ ३, २, ५, ५७; हिश्रौ १६, ७, १६.
अपि-हित,ता- -तः कौस् २६, २; २४; -तम् बौश्रौ १२, ६ : ११; आमिगृ २, १, ४ : २३; अप १२, १, ४; पागृ १, ३, ५; हिगृ २, ४, ५; कौस् ६६, २२; या २, १७ [†] ; ४, २५; -ताम् हिश्रौ १३, ८, ३२; -ते आपध १, ११, १९; हिध १, ३, ६९.	अपि/पथ्, अपिपाथयति शांश्रौ १६, १०, ८.	†अपि/वृइच्, अपिवृश्च निस् १, ७ : २०; कौस् ३६, ३५; अज ७, ९०.
अपिहित-द्वार ^a - -रे काश्रौ १०, ४, ३; २६, २, २.	अपि/पद् > अपि-पत् ^e - -त्तयोः अप्राय २, ३ ^f .	अपि-व्रत ^h - -ताः काश्रौ ८, ६, ३४; -†तान् आपश्रौ ११, १६, १२; वौश्रौ ६, ३० : २; वैश्रौ १४, १४ : ९; हिश्रौ ७, ८, १४; -तेषु वौश्रौ ६, ३० : १४; ८, ५ : ५.
अपिहित-पाणि ^a - -णिः शांगृ ४, ७, ४८; १२, १४.	अपि/पा(पाने) > अ-पाय द्रागृ ४, ४, २० ^g .	†अपि-शर्वर ^l - -राय ^m आपश्रौ १४, ३, ११; वौश्रौ २३, १३ : २५; वैश्रौ १७, ४ : ३; हिश्रौ ९, ७, ४०.
अपि/धाव (गतौ), अपिधाव वैताश्रौ १०, १७ [†] .	अपि-पूर्व- अपि द.	अपि-शाल ⁿ - > आपिशाल ^o - -लम् पावा ४, १, १४.
अपि/नह, अपिनहन्ते काश्रौ १४, १, २३; अपिनह्ये आपमं २, ८, १० [†] ; अपिनह्यस्व पागृ २, १४, १७.	अपि/भू, अपिभूम आमिगृ २, १, ५ : ९ [†] .	आपिशालि ⁿ - -पाग ४, ८०; पावा ४, १, ७९; -लयः वौश्रौप्र ३ : १३, -लेः पा ६, १, ९२.
अपि-नह- -हम् पैताश्रौ ३४, ११; या १०, १२ [†] .	अपि/मुप्, †अपिमृष्ये आश्रौ ७, ११, ३४.	आपिश(क्य>)ल्या- पा ४, १, ८०.
अपि-नह्य कौगृ १, १६, १९; ३, १, २; शांगृ १, २४, १२.	अपि/यत्- अपी(पि/इ) द.	अपिशलि ⁿ - पाउत्र ४, १२८.
अपि-नह्यमान- -नम् कौस् ६५, १.	अपि/वत्, अपिवातय उनिम् ५:३.	अपि/शस् (हिंसायाम्) > †अपि- शस ^k - -शसः आश्रौ ३, ३, १; शांश्रौ ५, १७, ४.
अपि-नि/धा, अपिनिदधाति माश्रौ ६, १, २, २४.	अपि/वन् > अपि-वान्य- > †न्य- वत्सा ^h - -त्साम् कौस् ८२, २२; -त्सायाः कौस् ८०, २५.	†अ-पिशाच-धीत ^u - -तः आपमं १,
अपि/नी, अपिनयति आपश्रौ ११,	अपि/वप्, अपिवपति वौश्रौ १४, २३ : ३२; माश्रौ ९, ९, २; वैश्रौ २०, ११ : ११; हिश्रौ १५, ३, २१; अपिवपेत् आपश्रौ ९, ६, ११.	
	?अपिवयति ⁱ बौश्रौ १६, ६ : १६.	
	अपि/वह, अप्यूहे या ६, ३५ [†] .	
	अपि-वि/सृज् > अपि-सृज्य गो	

a) विप. । बस. । b) तस. । c) नाप. । वैप १ द. । d) सप्र. °क्षम् <> °क्षे इति पाभे. ।

e) गस. के निष्ठा-नत्वाऽभावः डसं. । f) अतिपत्तयोः, अतिपल्लयोः इति मूको. । g) सप्र. गोय ४, १०, १७

अभिपाय इति पाभे. । h) = अभिवान्य^o. विप. । i) पाठः? अपिवपति इति मूको. ? । तु. संस्कृतुः टि. ।

j) पाभे. वैप १ परि. अपिपृज्अन्ति शौ ५, २, ३ टि. द. । k) वैप १, परि. च द. । l) विप. (इन्द्र-) । बस. ।

m) सपा. माश्रौ २, ५, ३, १४ अमिहा^o इति पाभे. । n) व्यप (मुनि-विशेष-) । व्यु. ? । o) नाप. (ग्रन्थ-विशेष-) ।

तत्कृतग्रन्थेऽर्थे अण् प्र. (पा ४, ३, ११६) । p) अपत्यार्थे इज प्र. (पा ४, १, ९६) । q) विप. । तस. उप. तृस. ।

१३, १; हि० १, २५, १^०.
अ-पिशित^b- तम् बौध्रौ २४, २१ :
 ८; बौध ३, १, १९.
अ-पिशुन- पाग ५, १, १२४; -नः
 कौट ३, ११, ९; शांठ ४, १२, ११.
 आपिशुन्य- पा ५, १, १२४.
अपि ✓ **शृ** > **अपि-शीर्ण-** णे क्षुम् १,
 ११ : २७.
अ-पिष्ट^c- ष्टः काश्रौ ५, १, ९; -ष्टान्
 माग २, १४, २८.
अपि-सं ✓ **नह**, अपि...संनहोत् ^d
 आपश्रौ १९, १९, ४; २०, १७;
 बौध्रौ १३, १३ : ४; २२ : ११;
 हिश्रौ २२, ३, ३०.
अपि ✓ **सृ**, ऋष्यसरत् आपश्रौ ९,
 ५, ६; बौध्रौ १४, २३ : १३;
 भाश्रौ ९, ७, ४; हिश्रौ १५, २, ५.
अपि ✓ **सृज्**, अपिसृजते बौध्रौ १४,
 १३ : ३६; अपिसृजति आपश्रौ
 २, १६, १५; १२, ८, ४; ११, ११;
 १९, १७, २; बौध्रौः अपिसृज
 बौध्रौ ७, १७ : ३८^१; अप्यसृजत्
 वाधश्रौ ४, २२ : ६; अपिसृजत्
 आपश्रौ ९, १३, १०; बौध्रौ.
अपि-सृज्य आपश्रौ २, ८, ६; ३, ४, ५;
 ५, ९; ८, १०, ५; ११, ३, २; बौध्रौ.
अपि-हित- अपि ✓ धा द्र.
अपी(पि ✓ ड), ऋष्येति शाश्रौ १६, ३,
 ३२^१; काश्रौः; अपिष्यन्ति शाश्रौ
 १३, २९, १५; कौस् ५४, १८; या
 १४, ४; अत्रा ३, ४, ७; ऋष्येतु
 आश्रौ ३, १४, १०; ८, १३, २६;

शाश्रौ १३, १२, १३; ऋष्येति
 बौध्रौ १४, १२ : १८; १९; २१;
 अपीत बौध्रौ ३, ११ : २३^१;
 अपीथ आश्रौ १, ११, ८^१;
 अप्यैताम् वाधश्रौ ४, २६^१ : ९;
 ११; १३.
अपि-यत्- -यन्तम् बौध्रौ १४,
 १४ : १.
अप्य(पि-अ)य^e- -यः कौस् १६, ८;
 २३, १७; २४, ३६; ३०, १२;
 ४६, १३; ५९, ८; -यम् आपश्रु
 १९, ११; -ययोः आपश्रु १७,
 ४; हिश्रु ५, ४४^१; -याः माश्रौ
 ६, १, ६, ११; -यान् आपश्रु
 १६, १; हिश्रु ५, २२; -ये
 शाश्रौ १३, २९, १४; आपश्रौ
 २३, १३, २; माश्रौ ६, २, ३, १^१;
 हिश्रौ; -येभ्यः काश्रौ १७, ६, ७;
 -येषु काश्रौ १७, ९, ९; माश्रौ
 ६, २, १, ६ × ×.
अपीच्य- अप्य(पि ✓ अ)च् द्र.
अपी-जू- अपि ✓ जू द्र.
अ-पीडित^f- -ताः गौध १, २७.
अ-पीड्य^g- -ड्यः शंघ २६१.
अ-पीत, ता^h- -तम् हिश्रौ १०, २,
 ५८; -तासु शंघ १४५.
? अपीताःⁱ लाश्रौ ३, ५, १५.
? अपीथाः^j द्राश्रौ ९, १, १६.
अ-पीलु^k- -लोः पा ६, ३, १२१.
अ-पील्व्वा(लु-आ/दि^l- -दीनाम् पावा
 ६, ३, १२१.
अपी-वृत्- आपि ✓ वृ(आच्छादने) द्र.

अ-पुंश्चल^m- -ल बौध्रौ १८, २५ : ६; ८.
अ-पुंश्चा(ध-आ)दि^l ^{km}- -दिषु शौच
 २५.
अ-पुंस्त्वⁿ- -स्त्वम् आज्यो १४, ५.
अ-पुण्यकृत्^o- -कृत् विध ५१, ७५.
अ-पुत्र, त्रा^p- पाग, पात्रा ८, १, ६७;
 -त्रः शाश्रौ १५, १७, १; -त्रम्
 विध १५, ४७; -त्रस्य शाश्रौ
 १५, १७, १; माश्रौ ६, १, ७,
 १७; कप्र ३, ५, १०; वाध १७,
 २^१; शंघ २९३; विध ६, २९;
 पा ७, ४, ३५; -त्रा मु २१, ४;
 कप्र ३, ६, ४; बौध २, २, ६२;
 विध २५, १७; या ३, ५; -त्राय
 वाध २४, ६; बौध ४, ४, ९;
 -त्रायाः कप्र ३, ५, ११.
अपुत्र-ता- -तायै शाश्रौ २, ९, ७; ८.
अपुत्र-धन^q- -नम् विध १७, ४.
अपुत्र-रिक्थ- -क्यस्य विध १८,
 ३३.
अपुत्रा(त्र-आ)दि- -दीनाम् पावा
 ७, ४, ३५.
अ-पुत्र(हन् >) **घ्नी^r**- -घ्नीम् आपमं
 १, १, ३^१; बौध्रु १, १, २४.
अ-पुत्रि(य >) **या^s**- -या शांठ १,
 १८, ३^१; काग २५, २०.
अ-पु(व्य >) **व्या^t**- -व्या कौट १,
 ११, ४^११.
अ-पुनः-पद्, दा^u- -दानाम् शाश्रौ ७,
 २६, ९; -दे शाश्रौ ७, २६, ७.
अ-पुनर्(ः) भाश्रौ ७, २०, १२;
 १२, ३, ११; ऋषा १, १०३^१.

a) ०धीरः इति पाठः! यनि. शोधः । b) विप. (।त्रतोपायनीय-।हविष्य-।) बस. । c) विप. (चरु-गन्ध-) । तस. ।
 d) तु. वैप १, ३०३ ० टि. । e) भाप., नाप. (संधि-प्रदेश-, नदी-संगम-) । गस. उप. भावा. धकरणयोः अच् प्र. ।
 f) अप्ययोः इति पाठः! यनि. शोधः । g) विप. । तस. । h) उप. < ✓ पा [पाने] । i) पाठः! (आ ✓ च्यै >)
 आ-पी(न >) ना- > -नाम् इति प्रकरणात् मधुकशा-परः शोधः (तु. शौ ९, १, ९ पै १६, ३२, ९) । j) विप. । बस. ।
 k) तस. > बस. । l) तस. । m) उप. पू. = पुंश्रली- । n) षस. । अपुत्रस्य धनम् इति कालिसं. । o) विप. । तस.
 > उस. । p) पाभे. वैप १ परि. अपुत्रिणीम् शौ १४, १, ६२ टि. द्र. । q) सप्र. ०त्रिया < > ञ्या इति पाभे.

अ-पुनर्-आयन^a- -नाय आश्रौ ६,
१४,११.

अ-पुनर्-आवृत्त्य वैगृ ५, १:१०.

अ-पुनर्-भव^b- -वम् बौध २,१०,९.

अ-पुमस्^c- -मान् हिध २, १,१०६;
आज्यो १३,४.

अ-पुरस्तात् काश्रौ २२,४,१०.

अ-पुरस्तात्-स्तोभ^d- -भम् निस्
६, ८:४२; -भानि निस् २,
३:२; ५; ९; -भे निस् १०,
२:३०.

अ-पुरी(ष>)षा^e- -वा आपश्रौ १७,
२५,४.

अ-पुरुष-विध,घा^f- -धम्, -घा:
या ७,७.

अ-पुरुषा(ष-अ)पराध^g- -धेन गौध
१२,३९.

अ-पुरुषा(ष-अ)भिवी(त>)ता^h-
-ता आपश्रौ २२, १६, ९; हिश्रौ
१७,६,३३.

अ-पुरोडा(श>)शाⁱ- -शा काश्रौ
२५,३,२४.

अ-पुरोडाशिन्^j- -शिनः निम् ५,
१३:२०.

अ-पुरोरुक्^k- -क्कान् बौश्रौ १८,४८:
१४.

अ-पुरोहित^l- -तम् अत्र २,३,३.

अ-पुरोहित-प्रवर^m- -राः आपश्रौ
२४, १०, १४; हिश्रौ २१, ३,
१६.

अ-पु(ष>)प्पाⁿ- -प्पा, -ःःपाम्
या १,२००.

अ-पूजन^o- -नात् अप ७०,१०,४.

अ-पूजित^p- -तम् अप ६८,२,५७.

अ-पूज्य^q- -ज्यस्य अप ७०, १०, ४;
-ज्याः अप ७०^r, १६,१.

अ-पूत- -तः काश्रौ २२, ४, ३१;
आमिगृ २, ४, ४:१; बौध ३,
७, १; ४, २, १२; -तम् बौश्रौ
१५,३०:९.

अपूप^s- पाग ४, ४,१०३; ५, १, ४;
-पः कागृ ६०,१; भागृ २,१५:
९ः; हिगृ २, १४, ४ः; -पम्
आपश्रौ ५,४,१५; बौश्रौ; -पस्य
आमिगृ ३, २, १:१५; कागृ;
-पाः द्राश्रौ १३,२, १०; लाश्रौ

५,३,१; द्रागृ ३,३,२९; कप्र ३,
९,१८; शोध १४०; -पात् आपगृ
२२,१; -पान् वैश्रौ १२, २२:
६; आगृ; -पानाम् आमिगृ १,
१,४:२१; हिगृ १, ७, १८;

गोगृ ३,१०,१४; -पानि वैगृ ४,
३:७; -पाभ्याम् मागृ २, १०,
३; -पे मीस् १०, १,४७; -पेन
बौश्रौ २३, ६:८; आगृ २, १,
१०ः; मागृ १,२३,११;२,१६,
३ः; वागृ ७,१०; -पैः पागृ २,
१५,२; आमिगृ १, २, २:४६;

आपगृ १७,१३; कागृ ६१,३; बौगृ
३,१,११;९,१३; भागृ ३,११:
१६; मागृ १, २३, १२; हिगृ २,
२०, १२; कौस् २०, ७ः; -पौ
आपश्रौ ५,४,१६.

आपूपिक- पा ४, ४,१०३.
अपूप-कु(ल्य>)ल्या^t- -ल्याः भागृ
२,१५:१३ः.

अपूप-कृत्- -कृताम् कांश्रु ३, १५,
६^h.

अपूपकृद्-अष्टकाⁱ- -के शांश्रु
३,१४,२^h.

अपूप-घृता(त-आ)हुतिⁱ- -ते
आपमं २,२१,१^h.

अपूप-धाना-करम्भ-सक्तु-वटक-तैल-
पायस-शाक^k- -कानि बाध १४,
३७.

अपूप-मांस-शाक^k- -कैः पागृ ३,३,
३.

अपूप-मिश्र- -श्रेण वैगृ ४,३:१७.

अपूप-लाज-समायुत^l- -तेन वैगृ २,
८:६.

अपूप-वत्- -वान् आमिगृ ३,८:
५६; ६२^r; ६३^r; बौपि १,१५:
६१; ६७^r; ६८; हिपि १६:३;
कौम् ८६,३; अत्र १८,४.

अपूप-स्रस्तर-लाजो (ज-उ) लोपिक-
मङ्गलफला(ल-अ)त्त-व(त>)
ती^m- -त्याम् मागृ २,६,४.

अपूप-हेतुⁿ- -त्व- -त्वान् मीस् १०,
१,५०.

अपूपा (प-आ) दि^o- -दि वैगृ २,२:
१.

अपूपा(प-अ)पहारिन्^o- -री शंघ
३७८.

अपूपा(प-अ)पिधान^o- -नाः हिपि
१४:१८.

अपूपा(प-अ)पिहित^p- -तान् अत्र
१८, ३ः.

अपूपा(प-अ)ष्टका^o- -का गोगृ ३,
१०,७; जैगृ २,३:२.

a) तस. । b) विप. । बस. । c) विप. (गो-). । तस.>तुस. (तु. माश ४, ५, ८, ११) । d) बस.

>षस. । e) नाप. । व्यु. । तु. वैप १, ५४३ j, l टि. । f) सप्र. आपमं २, १७, ३ कर्तेन इति पाभे. ।

g) षस. । h) सप्र. अपूपकृताम् अष्टके <> अपूपकृदष्टके <> अपूपघृताहुते इति पाभे. । i) नाप. । कस. ।

j) दस.>षस. । k) दस. । l) दस.>तुस. । m) विप. (वेदि-). । दस. >मतुप् प्र. । स्रस्तर- =कुशास्तरण-

उल्लोपिक- =पिष्टमय- । n) बस. । o) उस. उप. गिनिः प्र. । p) तुस. । q) मलो. कस. ।

अपूपाष्टका(का-आ)वृत्- -वृत्ता
 कप्र २,८,२३.
 ✓अपूपीय, अपूपीयन्ति काश्रौ १२,
 २,१२.
 अपूपीय- अपूप्य- पा ५, १, ४;
 पावा ५,१,२.
 अ-पूरणी-प्रियादि^१ -दिषु पा ६,
 ३,३४.
 ?अपूग्निनादशीति^२ वौश्रौ २०,१:२^३.
 †अ-पू (<पु)रूप- -पम् ऋप्रा ९,
 ५१.
 †अ-पूरूप-घ्न^४ -घ्नः ऋप्रा ९, ४७.
 अ-पूर्ण^५ - -र्णम् काश्रौ ४, १, ४; ६;
 -र्णानि वैगृ ६६: ८; -र्णे विध
 ५,१५३; १५७.
 अपूर्ण-प्रण- -णे अप ७२, ३, ५.
 अ-पूर्णद्वर्वा(र्व-अ)नुग्रह^६ - -हाय
 निस् ७, ३: १६.
 अ-पूर्यमाण- -णे काश्रौ २४, १, ४.
 १अ-पूर्व- -इय द्र.
 २अ-पूर्व^७ - -र्वः याशि १, ७८; -र्वम्
 शौच ३, ५७; पा ८, १, ४७; ७२;
 मीस् १, ४, २; ५, १, २९; २, १७;
 १०, ३, ४; १२, २, ३३; -र्वस्य
 लाश्रौ १०, ३, ९; मीस् ३, ८, ३१;
 -र्वणि शाश्रौ ६, १, ८; पागृ २, ६,
 ३२; -र्वसु मीस् १०, ५, १४;
 -र्वं तैप्रा २०, २; मीस् ७, ३, २;
 ८, ३, २६; ९, ३, २७; १०, ८, ५.
 अपूर्व-ता- -ताम् मीस् १०, ७, ३३.

अपूर्व-त्व- -त्वम् मीस् ८, १, ५;
 -त्वात् काश्रौ ४, ३, २१; मीस् १,
 २, १९XX; -न्वे पावा ४, २, १३.
 °अपूर्व-वचन^८ - -ने पा ४, २, १३.
 अपूर्व-व्यपदेश- -ज्ञात् मीस् १०,
 १, ४३.
 अपूर्व-संयोग- -ने मीस् २, २, २३.
 अपूर्वा (र्व-अ)नुत्तर-लक्षण-त्व-
 -त्वात् पावा १, १, २१.
 अपूर्वा(र्व-अ)र्थ^९ -वत् मीस् ११, ३,
 ४१.
 ३अपूर्व,र्वा^१ - -र्वः^१ आश्रौ २४, ३,
 २; वीगृ १, ४, ४३; मीस् ६, ८,
 १; -र्वम् आश्रौ २४, ४, १५^१;
 निस् १०, ३: १८^६; -र्वा आश्रौ
 ८, १३, १३^१; -र्वाम् शाश्रौ १०,
 १९, २^१; -र्वं वैताश्रौ ३९, ६^६.
 आपूर्विक^{१०} - -कः वीगृ २, ६,
 २४; १०, ९.
 अपूर्व-ता- -ताम् वीगृ १, ४, ४४.
 अ-पूर्व-काल-त्व- -त्वात् पावा
 ३, ४, २१.
 अ-पूर्व-निपात^{११} - -तः पावा २, २,
 ३०; -ते पा १, २, ४४.
 १अ-पूर्व-पद^{१२} - -दम् भास् २, २१^०;
 -देषु ऋप्रा १, ९५.
 २अ-पूर्व-पद^{१३} - -दात् पा ४, १, १४०.
 अ-पूर्व-पदा(द-अ)न्त-ग^{१४} - -गः
 ऋप्रा १, ७०.
 अ-पूर्व-पदा(द-अ)र्थ- -र्थम् पावा

६, २, ४९.
 अ-पूर्व-विधि- -धौ पावा १, ४,
 ५१.
 अपूर्वविधि-त्व- -त्वात् पावा १, १,
 ५७.
 †अ-पूर्व, र्या^{१५} - -र्व्य आश्रौ ६,
 १, २; ७, ८, २^२; ८, ५, १२; १०,
 २, २२; शाश्रौ ९, ३, २; ११,
 ११, १४; १८, १३, ९; १८, १२;
 वैताश्रौ २५, ३; लुस् १, ४:
 २७; ८: २६; उनिस् ७: १८;
 -र्या आश्रौ ८, ७, २३; शाश्रौ
 १०, १०, ६; १२, ५, ५; ऋअ
 २, ६, ३२; साअ १, ३२२.
 अ-पृक्त^{१६} - -क्तः ऋप्रा १, ७५; ८,
 १; शुप्रा १, ९५; ३, ११०; ४,
 ९१; ९४; तैप्रा १, ५४; ९, १६;
 शौच १, ७९; पा १, २, ४१;
 -क्तम् ऋप्रा २, ६१; ११, ३;
 १५, ९; शुप्रा १, १५१; पा ६,
 १, ६८; -क्तस्य शौच १, ७२;
 पा ६, १, ६७; -क्तात् शुप्रा ३,
 ६२; ४, ६०; -क्ते शुप्रा ४, ४०;
 पा ७, ३, ९१; ९६.
 अपृक्त^{१७} पावा १, १, ६२.
 अपृक्त-पूर्व^{१८} - -र्वं शुप्रा ४, १८७.
 अपृक्त-मध्य^{१९} - -ध्यानि शुप्रा ४,
 १८४; शौच ४, ११३.
 अपृक्त-लोप^{२०} - -पः पावा ६, १, ६७.
 अपृक्त-वर्जम् शुप्रा ४, १८३.

a) तस. > द्रस. । b) पाठः? *पूरिणी- [पूरिणीमा-] > -ण्या, वा, *दर्शिनी- [अमावास्या-]
 > -न्या, वा इति चतुष्पदः शोधः? । c) वैप १, परि. च द्र. । d) विप. । तस. । e) तस. > षस. ।
 f) विप. । बस. । g) षस. । h) कस. । i) बप्रा. । j) नाप. (दर्वि-होम-) व्यु. ? ।
 k) नाप. (एकाह-विशेष-) । व्यु. ? । l) नाप. (प्रजापतितनू-विशेष-) । व्यु. ? । m) विप. । तदस्य-
 प्रयोजनमित्यर्थे ठञ् प्र. (पा ५, १, १०९) । n) तस. > कस. । o) पाठः? 'पूर्वपदम्' इत्यस्यैव प्राकरणिक्त्वात्
 तत्परः शोधः (द्रयोर्बहुना वाऽऽख्यातानां हि-आदि-युक्तानां पूर्वं विक्रियते न निहन्त्यत इत्यर्थः) । p) विप. ।
 बस. > कस. । q) विप. । तस. > कस. > षस. > उस. । r) नाप. (पारिभाषिकसंज्ञा-विशेष-) । तस. ।
 s) षस. ।

अपृक्त-संज्ञा- -ज्ञायाम् पावा १, २, ४१.
 अपृक्त-संबुद्धि-लोप^a- -पाभ्याम् पावा ६, १, ६८.
 अपृक्ता(क्त-अ)धिकार^b- -रस्य पावा ६, १, ६८.
 अ-पृथक्-श्रुति^c- -ती ऋप्रा १३, ४०.
 अ-पृथग्-जय^d- -ये गौध १०, २१.
 अ-पृथग्-भाव^e- -वात् पावा २, ३, २१.
 अ-पृथिवी-रुद्र-पूप-मन्थिन^e- -न्थिषु पा ६, २, १४२.
 अ-पृथुसंमि(त >)ता^f- -ताम् कौस् १३७, ४.
 अ-पृथ्वि^g- -भिम् काश्रौ १४, २, १२.
 अ-पृषत्^h- -पन्तम् माश्रौ १, २, ६, २४.
 अ-पृष्ट- -ष्टाः गौध १३, ६.
 अ-पृष्टवा कप्र २, ५, ५.
 अ-पृष्ट^h- -ष्टम् द्राश्रौ ६, १, २१; लाश्रौ २, ९, १९; -ष्टस्य द्राश्रौ ६, १, १९; लाश्रौ २, ९, १६.
 अ-पृष्ट-शमनⁱ- -नानि काश्रौ २४, ६, १४.
 अ-पृष्ट-शमनीय^j- -यम् लाश्रौ १०, १७, १९.
 अ-पृष्टे वाश्रौ ३, ३, २, २०.
 अपे (प/ई), अपैनि निस् ९, १३ : ४६; कौय ५, १, १३; विध २३, ३९; कप्र १, ९, ३; अप (एति) उस् २, ५; अपयन्ति निस् ८, १३ : १९; ९, १ : २७; कौय ५, ३, ३१; आग्नि ३, ६, १ :

२९; बौपि १, ९ : ५; अप १, ६, ४; अप (यन्ति) साञ्च १, ६३४; अपैतु¹ आश्रौ २१, ३, १२; पाय १, ५, ११; आग्नि २, ४, २ : ३; ५, ४ : ७; हिग् १, २८, १; अप...एतु आश्रौ १६, १६, १; वैश्रौ १८, १४ : ३; वैताश्रौ ३८, १; काय ४५, ८; ७२, २; कौस् ९७, ७; ८; अशां १५, ५; अपो (एतु) ऋप्रा ५, १९; अपयन्तु आश्रौ १, ८, ७; माश्रौ १, १, २, ८; काय ६३, ३; वैय ४, ५ : १९; विध ७३, ११; अप...यन्तु काश्रौ २१, ३, ३१; वाश्रौ १, २, ३, १; २; अप (यन्तु) शुभ्र ४, ४२; अपेहि बौश्रौ २, ५ : २३; वैताश्रौ; अपेत शाश्रौ ४, १४, ७; काश्रौ; आपमं २, १३, १०; भाय १, २३ : ६; हिग् २, ३, ७; अपेयात् लाश्रौ १०, ५, ५; निस् २, ४ : २७; ४, १ : २७; आपध १, ७, २; ३, २, २०; हिध १, ८, ६२.
 अप-यत्- -यतोः निस् ५, ८ : ४.
 अपयती- -तीः काश्रौ १५, ४, २९.
 अपा(प-अ)य- -यः आश्रौ २, १, २२; -यस्य पावा १, ४, २३; -यात् निस् ९, १२ : २०; -ये पा १, ४, २४.
 अपाय-वत्- -वत् निस् ७, ४ : १४.
 अपा(प-अ) य(त >) ती- -तीषु

आश्रौ ६, १०, २९.
 अपे(प-इ)त- -तः कौस् १३०, २; -तम् या ६, १९.
 अपेत-प्रजनन^k- -नाः काश्रौ २२, ४, ७; लाश्रौ ८, ६, ४.
 अपेत-रा(ग >)गा^l- -गाम् ऋप्रा ११, ३६.
 अपेत-हेतु^m- -तुषु ऋप्रा ११, २३.
 अपेता (त-अ) पोढ-मुक्त-पतित- (त-अ) पत्रस्त- -स्तैः पा २, १, ३८.
 अपेता(त-अ)सुⁿ- -सुः जैश्रौ १९ : ९.
 अपे(प-इ)व्य काश्रौ २, ४, २; निस् २, १ : ३२.
 अपे(प/ई)क्ष्, अपेक्षन्ते बौश्रौ १०, ५२ : ७; कौस् ६८, २७; या १३, ८; अपेक्षेत् कप्र ३, ९, ११.
 अपे(प-ई)क्षा- -क्षया कप्र २, ६, ३.
 अपे(प-ई)क्षित- -तम् जैश्रौका १३७.
 अपे(प-ई)क्ष्य शंभ ३०३; सुध ६६.
 अपे(प-इ)न्द्र^o- -न्द्रस्य बौश्रौ १८, २९ : १७.
 अ-पेय, या- -यम् आपध १, १७, २१; बौध १, ५, १३५; १३७; हिध १, ५, ५३; गौध १७, २२; -या शंभ १५०; -यानाम् या ५, २; -यानि शंभ २२८.
 अपेय-पयः-पान- -ने बौध १, ५, १३८.
 अ-पेषण^p- -णम् मीस् ३, ३, ४३; -णे काश्रौ ८, २, १७.

a) द्वस. > षस. । b) षस. । c) विप. । तस. > बस. । d) तस. > कस. । e) विप. । बस. > द्वस. । f) विप. । तस. । g) विप. । बस. । h) विप. (रथन्तर-सामन्-) । बस. । i) विप. (सारस्वत-सत्र-) । बस. उप. नाप. = आग्निष्टोम-विशेष- । j) ष्टश इति पाठः ? यानि. शोधः । k) उप इति पाठः ? यानि. शोधः (तु. सपा. तैश्वा ६, ३, २) । l) पाभे. वैप १ पुरैतु शौ १८, ३, ६२ टि. द्र. । m) पाभे. ४ २४९१ द्र. n) विप. (सोम-) । बस. । o) तस. ।

अपै(प-आ√ए)य्, अप...पैयेः^३ ऋप्रा
१४, ४११.

अ-पैशुन^b - नम् आपथ १, २३, ६;
हिथ १, ६, १४.

†अपो(प√उ)च्छ्, अप...उच्छतु
कौम् ७०, १; अप(उच्छतु) कौम्
२६, ४२; ७९, २२; अत्र १४, २.

अपो(प-उद्>)च्√छुद्>अपोच्-
छाद्य आथौ ५, ५, ९; ६, १०.

अपो(प-उ)दक^c - कम् अत्र ५,
१३१; -केन कौम् ३९, १३.

अपो(प-उ)द्√इ>अपोद्-इत-
-तम् अप्रा १, १, १९.

अपो(प-उ)द्√ऊह् (प्रापणे)>
अपोद्-ऊह्य आथौ ५, ६, १; वैथौ १,
१० : ७; हिथौ ३, ३, ४२; ८,
३, ४.

अपो(प-उ)द्√दृ, अपोद्दवति
आमिगृ ३, ६, १ : ११^d; वौपि
१, ८ : १०.

अपो(प-उ)द्ध (इ√ह) न् >अपोद्-
धत्य आमिगृ ३, ८, १ : ३२.

अपो(प-उ)द्√धृ (<√ह), अपो-
द्धरति आथौ ५, १४, ६; ८, १, २१;
२३; हिथौ ७, १, ७४; अपोद्धरन्ति
हिथौ ३, ८, ५; अपोद्धरेत् वाधृथौ
३, ५८ : ९; आमिगृ ३, ७, ४ :
९; अप...उद्धरेत् वाधृथौ ३,
५८ : १०; अप...उद्धरेयुः आपथौ
६, २८, ४; आथौ ६, ६, १२.

अपोद्-धृत्य वौथौ २, १८ : ४XX.

अपोद्य अप√वद् द्र.

अपोनप्त्रिय-^e, ण्त्रीय- √*अप् द्र.

†अपोम्भत^f ऋप्राय २, ५.

अपो(प√ऊ)णुं, अपोणुते काथौ ७,
८, २३; आपथौ १०, २६, १७;
आथौ १०, १८, २; अपोणौति
काथौ २६, ४, १४; †अप...

ऊणुहि आपथौ ६, २२, १; या
४, ३^१; अपोणुं आपथौ ८, १४,
१२; वैथौ ९, ५ : १११; हिथौ
५, ४, ६३; अपोणव्रीत आथौ
१०, ८, १; अपोणव्रीत आपथौ
१०, ९, १०१; वैथौ १२, १२ : ६.

अपोशनकाल- √*अप् द्र.

अ-पोष^b - खे शुप्रा २, ४२.

अपो(प√ऊ)ह् (प्रापणे), अपोहति
शांथौ १८, २१, ७; काथौ ९,
३, ५; वौथौ; आमिगृ ३, ५,
५ : ९^f; अपऽअप...ऊहति या
६, १९१; †अपोहामि शांथौ ४,
९, ५; आपथौ; †अप...ऊह
कौम् ५, १, १३; आमिगृ ३, ५,
२ : ७; वौपि १, २ : ११; हिपि
२ : ३; अपोहेत् आथौ २, २,
१५.

अपोहयति वैध ३, १४, ७.

†अपो(प-ऊ)ढ, ढा- -ढम् आपथौ
६, ५, ६; आथौ ६, १०, ४; आथौ
१, ६, १, १५; वाथौ १, ५, २,
१७; हिथौ ३, ७, २६; -ढाः
आपथौ ६, ५, ६; आथौ १, ६,
१, १५; वाथौ १, ५, २, १७.
अपोह-कर्द(म>)मा^g - पाग २, १,
७२; ७३.

अपो(प-ऊ)हन->हन-निवेष्टन^h-
-नानि कौम् ४९, ११.

अपो(प-ऊ)ह्य काथौ २, २, १५;

आपथौ.

अप्तु-, अप-तुर्-, अप तूर्य-
√*अप् द्र.

अप्तु- पाठभो २, १, १४१.

अप्तुणसौथ-ⁱ, असोयाम-, असोयां-
मन्-, अम-, अमवान्-, अम-
वान्-, अमस-, अमस्वती-,
अप्पवित्र-^j, अपूर्व-√*अप् द्र.

अप्य(पि√अ)च् >अप्य (पि-अ) च-
>†अपीच्य^k- च्यम् आपथौ
२०, १३, ४; वाथौ ३, ४, ३, १;
हिथौ १४, ३, १०; अत्र ४८,
१०७; निघ ३, २५; या ४,
२५१^क.

?अप्यतियाति^l मु २६, ३.

अप्य(पि√अ)द्, अप्यादयेत् अप्राय
२, ४.

अप्य(पि-अ)य- अपी (पि√इ) द्र.
अप्य(पि√अ)र्ज्, अप्यर्जति वौथौ
६, २९ : २; १६, १ : १०; जैथौ
२१ : २.

अप्य(पि√अ)स् (क्षेपणे), अप्यस्यति
वाथौ २, १, ७, ५; ८, ८; ३, २,
५, ८.

अप्य(पि-अ)स्य आथौ २, ५, १, ११;
३, ६, १८; २१.

अ-प्रकरण- -णात् मीस् ३, ४, ८; ६,
१; -णे मीस् २, २, १२XX.

अप्रकरण-त्व- -त्वात् मीस् ३, ८,
३८; ९, २, ५३.

अ-प्रकरणो(ण-उ)त्पत्ति^k- -त्तिः
काथौ १, ३, २९.

†अ-प्रकाम^b - माः जैग् २, १ : ३१;
३२.

a) वैप १, ३०६ e, f द्र. । b) तस. । c) विप. । बस. । d) अहो इति पाठः? यनि. शोधः

(द्र. वौपि.) । e) पाठः? । सप्र. अप ३७, ५, २ अर्पां ततः इति? । f) सपा. वौपि १, ६ : ४ वेद्यति इति पाठे. ।

g) पूष. लोटि मपु१ इति । h) द्रस. । i) वैप १, परि. च द्र. । j) पाठः? । सप्र. सु २४, २; २५, ५

अतिपिपाति इति । k) विप. (अनारभ्यवाद-) । तस. उप. बस. । :

अ-प्रकाश^b - -शम् विध ५, १६६;
१९०.

अ-प्रकृत^b - -तानाम् हिथ्रौ २२, ४, २०.
अप्रकृत-स्व- -स्वात् मीस् २, २, १०;
१५

अ-प्रकृतिस्वरत्व^c - -त्वम् पावा ६,
२, ४९.

अ-प्रकृष्ट^b - -ष्टम् हिध १, ८, १३^d.

अ-प्रकृष्य द्राग्य १, २, १०.

अ-प्रकृतस्त्व^c - -स्वात् काश्रौ ६,
७, २.

अ-प्रक्रान्त^b - -न्तम् वौश्रौ २४, ७ :
२; ३; -न्ते वैश्रौ २०, ३ : १२.

अ-प्रकाथयत् - -यन् आमिग्य ३, ६,
३ : १०; वौपि १, ११ : ८; हिपि
९ : २; -यन्तः हिपि ५ : ५.

अ-प्रक्षालित, ता^b - -तम् बौध १,
६, १४; विध २२, ७१; ६४, १३;
-तया वैताश्रौ ७, २२; अप ४५,
२, ८.

अ-प्रक्षाल्य बौध २, ५, २,

अ-प्रक्षिणत्^b - -णन् आपश्रौ २, १९,
७^e; भाश्रौ १, १७, १४; वाश्रौ
१, १, १, ५२; वैश्रौ ६, ८ : ९.

अ-प्रक्षणात् - -क्षणन् हिथ्रौ २, २, २४^e.

अ-प्रख्यात^b - -तम् या ३, १३; ५, ८.

अ-प्रख्यापनीय^c - -यम् या ५, ८.

अ-प्रगान^b - -णान् मीस् ९,
१, ५३.

अ-प्रगृह्य^b - -ह्यम् वाध १३, ४६;
-ह्यस्य पा ८, २, १०७; ४, ५७;
-ह्याणि माश्रौ ५, १, १, ११;
वृदे ४, १४४^g; -ह्यान् ऋप्रा
१, ६३.

अ-प्रग्रह^h - -हाः तैप्रा १५, ६.

अ-प्रचरणीय - -यः भाश्रौ ११, १७,
११; -यौ आपश्रौ १५, ६, ११;
भाश्रौ ११, ६, ८; वैश्रौ १३, ८ :
१०; हिथ्रौ २४, २, १०.

अ-प्रचेतस्^h - -ताः शाश्रौ १२, २०,
२; कौग्य ३, १०, ३०; शाग्य २,
१४, २६.

अ-प्रचोदित, ता - -तम् चाश्र १६ :
१; -ताम् वाध १४, १६.

अ-प्रच्छादि (त >) ता - -तायाम्
विध ६०, ३.

अ-प्रच्छिन्दत् - -न्दन् गोग्य २, ९, १६.

अ-प्रच्छिन्नप्रान्त^b - -न्ते माश्रौ १,
१, ३, ११; -न्तौ माश्रौ १, ५, ३,
१; ७, १, ४०; वाश्रौ १, २, २, ८;
३, ३, १६; ६, ४, ७; वाग्य १, १२;
कौस् १, ३७; ६७, २५.

अ-प्रच्छिन्नाग्र, प्रा^b - -ग्रम् आपश्रौ
१५, १५, १; १६, २४, १;
भाश्रौ १२, १५, ३; वैश्रौ १८,
१७ : ३२; हिथ्रौ ११, ७, ३२;
२४, ६, ११; -ग्राः आमिग्य १, १,
४ : १; हिग्य १, ७, १; -ग्रेण
आपश्रौ १५, ७, २; -ग्रौ आपश्रौ
१, ११, ६; भाश्रौ १, १७, ६;
हिथ्रौ १, ३, ९; आग्य १, ३, ३;
आमिग्य १, १, १ : २५; भाग्य १,
२ : १४; हिग्य १, १, २३.

अ-प्रच्यवमान - -नस्य या १, २.

अ-प्रच्यवयत् - -यन्तः आमिग्य ३, ५,
६ : १०; वौपि १, ४ : २५; हिपि
५ : ५.

अ-प्रच्युति - -स्याम् शाश्रौ १६, २२,

१३; -स्यै शाश्रौ १६, २२, २२.

अ-प्रज, जा^b - -जः वाध २, ५; बौध
१, ११, ३१; -जानाम् वाध ११,
२४; -जाम् बौध २, २, ५९;
आज्यो १३, ६; -जायाम् विध
१७, १९.

अप्रज-स्व- -त्वम् अप ३५, २, ११.

अ-प्रजङ्घि^b - -ङ्घयः बौध २, ६, ३४^f.
अ-प्रजन^l - > °न-स्व- -स्वान् गौध
३, ३.

अ-प्रजनन^l - > °न-स्व- -स्वान् बौध
२, ६, २९.

अ-प्रजस् - पा ५, ४, १२२; -जाः
शंघ २७९.

अप्रजस्-ता - -ता वौश्रौ २, ५ : २०;
-ताम् आपमं १, ४, ११^k;
आमिग्य १, ५, ३ : २^k; वौग्य १,
४, २३^k; भाग्य १, १४ : ११^k; वैग्य
३, ३ : ४^k; हिग्य १, १९, ७^k;
जैग्य १, २० : २८^k; अप्रा ३,
४, १.

अप्रजास्-स्व- -स्वम् अप ४६, ६,
३^f.

अ-प्रजा^h - -जाः वाध १७, ३;
वृदे १, ५८.

अप्रजा-ता - -तायै वाधूश्रौ २,
८ : २.

अ-प्रजा (त >) ता^b - -ता वाध १७,
७८^f; -ताः वाध २१, १२.

अ-प्र (ज्ञा >) ङ्ग^l - -ङ्गेन भाग्य १, ११ :
४.

अ-प्रज्ञात^b - -तस्य लुस् ३, १४ : १२;
-तान् वौश्रौ २४, १ : ७; -ते
हिपि १३ : २.

- a) तस. वा. क्वि. । b) विप. । तस. । c) तस. । d) सपा. आपध १, ३०, १३ ?अप्रतिहृ°
इति पाभे. । e) सपा. °क्षिणन् < > °क्षणन् इति पाभे. । f) तस. उप. = प्रगृह्य- । g) वैप १, परि. द्र. ।
h) विप. (श्रोत्रिय-, प्रेत- प्रमृ.) । बस. उप. प्रजा- । i) बस. उप. प्र/जन् + भावे घञ् प्र. । j) बस.
उप. ल्युट् प्र. । k) सपा. मंत्रा १, १, १४ अप्रजस्यम् इति पाभे. । l) विप. । बस. ।

अप्रज्ञात-बन्धु ^a - बन्धुः वीथौ २४, २८ : ५.	९.	१०, १२, ५; काश्रौ १२, ४, २१; जैगृ २, ८ : १३; आपध २, ९, ५; बोध ३, ९, ७; हिध २, १, ११९; गोध १३, २८.
अ-प्रज्ञात्र ^b - त्रम् वीथौ १६, २७ : १७.	अ-प्रतिकर्ष ^c - र्षः मीसू ११, २, ५७.	
१अ-प्रज्ञान ^d - ने वैताश्रौ ३५, ६.	अ-प्रतिकूल ^e - लः कौगृ १, ८, १; शांगृ १, १२, २; कागृ १, ९; मागृ १, १, २; वागृ ६, ३.	
२अ-प्रज्ञान, ना ^f - नम् या ५, १५; -ना गु ५, ४.	!अप्रतिकृष्ट- -ष्टम् आपध १, ३०, १३ ^h .	
अ-प्रज्ञायमान, ना - नम् वाध ३, १३; -नाः कागृ ७३, ३.	अ-प्रतिगृह्यत् - ह्यतः बोध २, २, ८०.	
अ-प्रज्वलित - ते अप ७२, १, ६.	अ-प्रतिगृह्य ⁱ - ह्याणि वाध १३, ५५.	
अ-प्रणत - तः गोगृ १, २, १५.	अ-प्रतिग्राहक ^j - काः आश्रौ १०, ७, ९; -कान् शाश्रौ १६, २, २९.	
अ-प्रणयत् - यतः आश्रौ ४, १०, ८.	अ-प्रतिग्राह्य ^k - ह्यम् काश्रौसं ३० : ५; आगृ ३, ६, ८; कौगृ ४, १, १; वाध २२, १; गौध २४, २; -ह्यस्य वीथौ १८, ४७ : २४; बोध २, ३, ८; ३, १०, ३; -ह्याः विध ५७, ५; -ह्येभ्यः विध ५७, ६.	
अ-प्रण(व>)वा ^l - वाभिः शाश्रौ १६, ३, २०; १२, १७; -वाम् आश्रौ १, १०, १.	अ-प्रतिघातक ^m - कम् अ ३३, १, ८.	
अ-प्रणवा(व-अ)न्त ⁿ - न्तः आश्रौ ८, ३, ६.	अ-प्रतिच्छिन्नाग्र ^o - अ्रे वीथौ १, ४ : १६.	
अ-प्रणाश ^p - शाय जैथौ १९ : ७.	अ-प्रतिधृष्य, ष्या ^q - ष्यः शाश्रौ १०, १८, ४; आपश्रौ २०, ४, २१; वीथौ १५, ५ : १८१; १९, ७ : ४२; वैगृ ५, ४ : १३; -ष्यम् सु २२, २; -ष्या आश्रौ ८, १३, १३.	
१अ-प्रणीत ^r - तः अप ३७, १०, १; -तम् आश्रौ ३, १२, १६.	अ-प्रतिनिधि ^s - धेः शाश्रौ १, ८, १४.	
२अ-प्रणीत ^t - ते आश्रौ १, १, ५.	अ-प्रतिपत्ति ^u - त्तिः कप्र २, ४, १-५; पावा १, १, ४४ ^v ; ४, २.	
अ-प्रणुत - तेषु माश्रौ २, ४, २, २५.	अ-प्रतिपन्न-रश्मि ^w - रश्मिः या ५, ८.	
अ-प्रणुवत् - वन् आश्रौ ६, १०, १७; १०, ८, ५; शाश्रौ १०, १३, २६; १६, ३, २३; १८, १, २.	अ-प्रतिभा ^x - भाम् दाश्रौ ९, ३, १९; लाश्रौ ३, ७, ६; -भायाम् शाश्रौ	
अ-प्रणोद्य - द्यानि गौध १७, ३.		
अ-प्रताप ^y - वे वीथौ ५, १ : २९.		
†अ-प्रति ^z - त्ति आपश्रौ १२, २२, ५; वीथौ ७, १३ : २५; हिगृ १, १५, ६; -तीनि निसू १, १ : १९; -तेः पा २, ३, ४३; ८, ३, ६६.		
अ-प्रतिकर्म-क्रिया ^{aa} - या विध २५,		

a) विप. । बस. । b) वैप १, परि. च द्र. । c) तस । d) विप. (तमस्, कद्-). । बस. उप.
भाप. । e) विप. । तस. । f) विप. (कर्मन्-). । बस. । g) तस. > षस. । h) पाभे. पृ २७४ d द्र. ।
i) विप. । तस. > बस. । j) विप. (यज्ञ-). । बस. उप. भाप. । k) व्यप. (ऋषि-विशेष-, तद्दृष्ट-सूक्तविशेष-). ।
बस. । l) षस. । m) द्रस. ।

अ-प्रतिरूप^a - पः अप २०, ६, ६^३।
 अ-प्रतिलोमयत् - यन् आपध १, २,
 २०; हिध १, १, ५३.
 अ-प्रतिवात^b - तम् आपध १, ६, २३;
 हिध १, २, ४६.
 अ-प्रतिवाद्यमान^c - ने लाश्रौ ९,
 ८, १७; १९.
 ?अप्रतिवाइयाः^d पाठ ३, १३, ४.
 †अ-प्रतिविद्ध- -द्वाय वौश्रौ ३,
 १३ : १०; वैश्रौ २, १० : ११.
 अ-प्रतिविभज्य आपध्रौ २, ४, २; २१,
 २३, ७; भाश्रौ २, ४, ३; हिश्रौ
 १, ७, २; १६, ८, ९.
 अ-प्रतिशीर्णाग्र^e - ग्रान् भाश्रौ ११,
 ५, २३^f.
 अ-प्रतिशुक्लाग्र^g - ग्रः वौश्रौ ४,
 १ : १६; वैश्रौ १०, १ : १४;
 -ग्रम् आपध्रौ ७, १, १७; वाश्रौ
 १, ६, १, ७; -ग्रा वौश्रौ १, १ :
 ९; भाश्रौ १, २, ९; -ग्राः वौश्रौ
 २, ६ : २१; २४; १२ : ६; ९,
 १९ : २२; २० : १०; वौश्र २,
 ५, ३५; ६६; ३, २, १०; २३;
 ३५; ४८; ३, १२; ४, १५; ३१;
 -ग्राम् आपध्रौ १, १, ८; ७, १२,
 ५; वाश्रौ १, २, १, २.
 अ-प्रतिश्रुणत् - णन् वौश्रौ ६, १९ :
 १५; २१ : १४; हिश्रौ २, ४,
 २३.
 अ-प्रतिपिक्त- -क्तम् हिश्रौ ३, ७,
 ३३.

अ-प्रतिपिद्ध- -द्धम् माश्रौ १, ८, २,
 ३०; शांठ १, ३, ११; कौम् ७३,
 १९; पा ८, १, ४४; मीम् १०,
 ६, ५^h; -द्वाः हिश्रौ १३, ७, २८;
 निम् ६, ६ : ३; -द्वाणि निम् ९,
 ११ : ३२; कौम् ३२, २६.
 अप्रतिपिद्ध-त्व- -त्वान् पावा १, ३,
 ७९.
 †अ-प्रतिपेक्यⁱ - क्यम् आपध्रौ ६,
 ६, ४; १५, ८; भाश्रौ ६, १०, ८.
 अ-प्रतिपेध^j - धः पावा १, १, ६;
 २२; २, ४९; ३, १५; २, २, १४;
 ३, ३५; ६६; ६९^३; ४, ८१; ३,
 १, १; ११२; ४, १, ६३; १४७;
 ५, १, २१; ६, १, ६६; १६७;
 १८६^३; ४, १०१; ११०; ७, ३,
 ५९; ६१; ११३; ८, ४, ३; मीम्
 १०, ७, ३६; ११, ७, ४५; -धस्य
 पावा ६, १, १६; -धात् पावा
 १, १, ४२; -धे ऋत् ५, ५,
 १०.
 अप्रतिपेधा(ध-अ)र्थ- -र्थम् पावा १,
 १, ४; २, ४, ८३.
 †अ-प्रतिष्कुत^k - तः आपध्रौ १७,
 ८, २; अप ४८, ११५; निघ ४,
 ३; या ६, १६०; -तम् निम् १,
 १ : १४.
 अ-प्रतिष्कृत^l - तः या ६, १६.
 अ-प्रतिष्टब्ध^m - ष्धः आपध १, ६,
 १६; हिध १, २, ३९.
 अ-प्रति(ष्टा >)ष्टⁿ - ष्टः अत्र ८ भू;

-ष्टम् वाध्रुश्रौ ४, १६ : १२.
 अ-प्रतिष्टा^o - ष्टा आश्रौ २०, ३,
 ११; -†ष्टाम् भाशि ६५; ६८;
 ७२.
 †अ-प्रतिष्टान^p - नः वौश्रौ ३, २२ :
 १; १३, १० : १; अत्र ११, ३^३,
 ४९.
 अ-प्रतिष्टाप्य वौश्रौ १४, २ : २१.
 अ-प्रतिष्टित- -तः आपध्रौ ७, १, १८;
 २२, ११, ३; वौश्रौ १४, २ : २१^३;
 १८, ४७ : ८; ९; २६; भाश्रौ
 ७, १, ८; वाध्रुश्रौ ४, १६ : १४;
 हिश्रौ ४, १, १५; १७, ५, १; -तम्
 आपध २, १२, ११; हिध २, ४,
 ४८; -ताः वौश्रौ १८, २५ : १९;
 -तानाम् गौध २८, २५; -तानि
 वौश्रौ १४, २ : २२.
 अ-प्रतिस्खलित- -तः या ६, १६.
 अ-प्रतिहत- -तः आपध्रौ ५, ५, १०;
 -तानि अप ६५, ३, ७; -ते पाठ
 २, १, २.
 अप्रतिहत-गुरु-वाक्य^q - क्यः वौध
 १, २, २३.
 अप्रतिहता(त-अ)क्काश^r - शेषु
 वौध ३, २, ९; ११; १२.
 अ-प्रतिहार, रा^s - रा लाश्रौ ७, ३,
 १३; -राणि लाश्रौ ७, ५, ८; -रे
 लाश्रौ ७, २, ६.
 अ-प्रतिह(त >)ता- -ताभिः आपध्रौ
 १४, २१, १३; २१, १७, ३; वैश्रौ
 २१, ८ : २.

a) विप. । बस. । b) =अविपरीत- । तस. वा. क्वि. । c) विप. (इवन्- वा गर्दभ- वा) । तस. ।
 d) पाठः ? अ-प्रतिवाशित- (< प्रति ✓ वाश् [शब्दे]) -तः > नैप्र. -इयः [विप.] इति शोधः; वैतु BC. प्रष्ट.
 ष्वाँच्यः, इति । e) विप. (मुञ्ज-प्रलव-) । तस. । f) सप्र. हिश्रौ २४, २, ६ 'प्रवि' [वैतु. भाष्यम् णि° इति]
 इति पामे. । g) विप. । तस. । h) अविप्र° इति प्रयासं. । i) वैप १, परि. च द्र. । j) तस. । k) तस. ।
 णित्स्कृ° इति ल. । l) विप. (ब्रह्मचारिन्-) । तस. । m) भा. (आश्रौ.), नाप. (एनचउद्वादि-अनुनासिक-
 विशेष-भाशि.) । तस. । n) विप. (शिष्य-) । बस. उ. षस. । o) कस. । p) विप. (स्तोत्रिया-
 अध्यासपुरीष-) । बस. उप. =सामभक्ति-विशेष- ।

अ-प्रतीक्ष^a -क्षः आपृ १८, १२;
-क्षाः आपृ ८, ८, १८; १८,
१०; आप्रि ३, ४, ४ : २१;
वौषि ३, ४, १६; १९; हिपि ८ :
७; गौषि १, ४, १४; आपृ २,
१५, ९; हिध २, ३, ३९.

†अ-प्रतीक्षम्^b आपृ १३, २२, ५;
१६, १६, १; १८, ८, २०; ९, २०;
वौषि ४, ११ : ४; ६, ९ : १९;
८, २० : २२; १७, ३८ : ११;
भापृ ७, २३, ४?; ८, २२, ६?;
वैपृ ९, ११ : १५; १०, २२ :
५; १६, २७ : ३; १८, १४ :
११; हिपृ ५, ५, २२; ९, ५,
४८; ११, ६, १४; १३, ३,
२२; भापृ २, १० : ५; १३ :
१७.

†अ-प्रतीक्ष^c -त्तः आपृ १७, २१,
७; -त्तम् भापृ २, ५, ५, १८°;
-त्ता आपृ ५, २०, ६; शापृ ३,
२०, ४.

†अ-प्रतीक्ष^d -त्तम्^e आपृ १३,
२४, १५; वौषि ४, ११ : ८;
वैपृ १६, २८ : ५; हिपृ ९, ६;
२५; वैतापृ २४, १५; कौषि
६७, १९; १३३, १; अय ३७,
१५, १; अय ६, ११७; अय ३,
४, १; -त्तानि आपृ १३, २२,
५; वौषि ४, ११ : १४.

अ-प्रतीक्ष-अ-प्रतिभा-द्र.
अ-प्रतीक्षार^f -रम् कौषि २८, १३;
५८, १२.

अप्रतीक्षार-पिट- -टान् कौषि २५,
२७.

अ-प्रत्त,त्ता- -त्तम् वौषि १२, ११ :
१५; १८, १७ : १५; -त्ता वाध
१७, २३; -त्तानाम् पापृ ३, १०,
४१; गौषि २८, २५; -त्तायाः
या ३, ५; -त्तासु आपृ ४, ४, २०;
वौषि १, ५, १४.

अप्रत्त-द्वैवत्^g -नम् आपृ ९, १५,
१०^h; भापृ ९, १७, १२; हिपृ
१५, ४, ३७; -त्ते शापृ ३, २०,
१२.

अ-प्रत्यक्षⁱ -क्षम् शंध ३२५.
अप्रत्यक्ष-शिष्ट-त्व- -त्वात् मीम्
१०, १, ३.

अप्रत्यक्ष-म् (ख्या >) ख्य^j -त्व-
-त्वात् मीम् ८, ३, ७; १०, ५,
८४.

†अ-प्रत्यभिघारण^k -णम् कापृ ५,
६, १८.

†अ-प्रत्यय^l -> ०य-त्व- -त्वात् पावा
६, ४, १०४.

†अ-प्रत्यय^m -यः पा १, १, ६९; २,
४५; पावा १, २, ४५; -यस्य
पा, पावा ८, ३, ४१; -ये शौच ३,
३; पा ६, ३, ९२४ⁿ.

अप्रत्यय-संज्ञा-प्रतिषेवा (घ-ग्र-)
र्थ- -र्थम् पावा १, १, ६१.

अ-प्रत्यय-स्थ^o -स्थे पावा ६, १,
१३.

अप्रत्ययस्थ-त्व- -त्वान् पावा ७, ३,
४४.

अ-प्रत्य(ति-अ)र्थ^p -र्थम् पावा १,
२, ६४.

अ-प्रत्ययवृशत्- -शान्तः वौषि १५,
४ : ४.

अ-प्रत्ययवृष्ट- -ष्टे वौषि २०, १६ :
४४.

अ-प्रत्ययवृद्ध- -द्धम् निम् २, ९ :
३५; -द्धानि निम् ८, ८ : ३७.

अ-प्रत्ययवरोहिन्^q -ही^r कापृ
२२, ५, २७; वौषि १८, २ :
१०.

अ-प्रत्ययवाय^s -यः हिपृ ३, १, ३;
निम् ४, ७ : १४; -यान् मीम्
६, ३, १०.

अ-प्रत्याख्यायिन्^t -यिन् आपृ
१, २२, ६.

अप्रत्याख्यायिनी- -नीम् आपृ १,
२२, ७; -न्यः पापृ २, ५, ५; वापृ
५, २८.

अ-प्रत्यादि^u -दिभिः पावा २, ३,
४३.

अ-प्रत्यास्नात-प्रायश्चित्त^v -त्ताः
वौषि २०, २३ : १२.

a) विप. (लुप्ततोऽनिरीक्षमाण-) पुरुष-। तस. उप. कर्त्तरि कृत् । b) वैप १ द्र. । c) प्रती° इति पाठः? यनि. शोधः (तु. वौषि ४, ११ : ४) । d) वैप १. परि. च द्र. । e) पाप्मे. वैप १ परि. अ-प्रतीक्षम् मं ४, १४, १७ टि. द्र. । f) तम. । न प्रत्याहरणं यथा स्थातथेति वा. क्वि. उप. घञन्तम् । णतुलन्ते वा दीर्घः उस्. [पा ६, ३, १२२; (तु. गोपृ २, ६, ८ प्र. नृ., C. [ZDMG ५३, २२३ च]] । g) विप. (द्वैवतेभ्यः अप्रत्त-] हविम्-) इति चस. उप. स्वार्थे प्र. । h) ऽद्वैवत् इति भाष्यकारः । i) तस. वा. क्वि. । j) वस. । k) तस. उप. <प्रत्य(ति-अ)भि √ वृ । ऽभिच्वा° इति कांस. शोधः द्र. (तु. चौस. Web.) । l) तस. उप. =पारिभाषिक संज्ञा- । m) प्राथेणोपलभ्यमानोऽपि व° इति पाठः अनपेक्षितः (तु. पासि.) । n) तस. उप. उस्. । o) तस. उप. अस्. । p) विप. । तस. । q) सपा. अ-प्रत्ययवरोही <> अप्रत्युत्थायिकः इति पाप्मे. । r) तस. उप. <प्रति-अव √ ह । s) तस. उप. वस. ।

अ-प्रत्याम्नाय^a- ये ऋषा १, ६१.
 अ-प्रत्यारोह^b- हाय निसू ३, ८ :
 २३.^c
 अ-प्रत्यावृत्ति^b- त्तिम् अप ४४, १,
 १४.
 अ-प्रत्याहर(त् >)न्ती- न्ती
 गोष्ट २, ६, ८; द्राष्ट २, २, २२.
 ?अ-प्रत्युत्थायिक^c- -कः वैताश्रौ ११,
 १८^d.
 अ-प्रत्यृत- -तः या ६, २३; -तम्
 या ४, २७; ६, २३.
 अ-प्रथम,मा^b- -मः जैश्रौका १०३;
 -माय निसू २, ९:३२, -मायाः^e
 पावा २, २, २४; -मायाम् पा
 ६, ३, १३२, -मेन पावा ४, १,
 ८२^f.
 अ-प्रथम-यज्ञ^g- -ज्ञे वैताश्रौ २८, १.
 अ-प्रथमा-स्व- -त्वात् पावा ६, ३,
 ६७.
 अ-प्रथमा-समानाधिकरण^b- -णे
 पा ३, २, १२४; पावा ३, २, १२४;
 ३, १४; -णेन पावा ३, २,
 १२४.
 अ-प्रथि(त् >)ता- -ता या १, १४.
 अ-प्रदक्षिण^h- -णः अप २१, ७, ५;
 -णम् शाश्रौ १७, १४, १५; काश्रौ
 ४, १३, १२; वैष्ट ५, २ : १८;
 ६ : २; गौपि २, ४, ४; -णानि
 गौपि १, ५, २४; -णेन विध
 १९, ६.
 ?अ-प्रददिⁱ- -दिः शाश्रौ १२, २१,
 २१.

अ-प्रदातृ^b- -ता विध ५, ११२.
 अ-प्रदान^b- -नात् मीसू ९, ४, ३३.
 अ-प्रदाय विध ६३, ४५.
 अ-प्रदायिन्^b- -यी विध ५, १७८.
 †अ-प्रदाहⁱ- -हाय आपश्रौ ५, २, ४;
 बौश्रौ २, १७ : १०; १३, १४ :
 १०; निसू ६, ५ : ११; आमिष्ट
 २, ४, १० : २७; २९-३१; ३३; ६,
 ७ : २२; २४-२७; बौध २,
 ७, ३.
 अ-प्रदेशⁱ- -शात् मीसू ९, ३, २३;
 -शे अप १ : ४६.
 अ-प्रधक्षत्- -क्षन्तम् द्राष्ट २, ५, ३०^k.
 अ-प्रधानⁱ- -नम् मीसू ९, ४, ४७;
 -नस्य शाश्रौ १३, २४, १४;
 -ने पा २, ३, १९; पावा १, ४,
 ५१.
 अ-प्रधान-कनीयस्- -यसी पा ६,
 २, १८९.
 अ-प्रधान-गुरु^m- -रुम् कौसू १४१,
 ३०.
 अ-प्रधान-स्व- -त्वात् पापवा ५,
 १६.
 अ-प्रधान-भूⁿ- -ते निसू २, ९:
 २७.
 अ-प्रधान-वचन- -नम् पावा २, ३,
 ४; १९.
 अ-प्रधान-काल^o- -लम् काश्रौ १,
 ७, १४.
 अ-प्रधूनयत्- -यन् माश्रौ १, १, १,
 ३६.
 अ-प्रधृष्य- -व्याणि अप ५८^r, १, ३.

अ-प्रध्या^o- -ध्या बौश्रौ २, ५१०.
 अ-प्रपन्न- -न्नम् बौध १, ७, २०.
 †अ-प्रपा(ण >)णा^o- -णा शाश्रौ १२,
 २१, २; १६, १३, १०.
 अ-प्रपत्त,त्ता- -†त्तः आपश्रौ ५,
 २५, २०; बौश्रौ ७, ६ : ३४;
 १०, ५४ : ३; १५, ३५ : ३;
 भाश्रौ ७, २३, १२; माश्रौ ५,
 २, १५, ३; हिश्रौ ६, ५, ३२;
 कौष्ट २, ७, २१; ३, ११, ४७; शाष्ट
 २, १२, ६; ४, ११, १६; माशि
 १४, ८; -त्तम् अप ३, ३, ८;
 वाध २, ९†; विध २९, १०†;
 या २, ४†; -तस्य बौध ४, ५,
 १५; -त्ता वाध १७, ९†; -त्ताः
 पाष्ट २, १७, १३-१६; कौसू
 १४०, ८; अप १९, १, ७; आपध
 २, १३, ६†; बौध २, २, ३६†;
 हिध २, ३, ६†.
 †अ-प्रमाण^o- -णम् निसू २, १ : २६;
 आपध २, २३, १०; विध ७, ६;
 पावा ४, १, ९२.
 †अ-प्रमा(ण >)णा^o- -णाम् अप
 ३०^r, २, २.
 अ-प्रमाद^m- -दम् वैताश्रौ ३६, २७†;
 वैष्ट ६, ४ : ११; कौसू ९८, २†;
 बौध ३, ३, १६; या १२, ३७†;
 १४, १०; -†दाय आमिष्ट ३,
 १, २ : १४; १७; २१; २, ३ :
 ३; ७; १०; हिष्ट २, ११, ४†;
 बौध २, ८, १२†; -†दे अप ४८,
 २८.

a) तस. उप. =पुनर्वचन- । b) तस. । c) विप. । तस. उप. गस. <प्रथु (ति-उ) द् √स्था । पाठः? युक्- इति शोधः (तु. वैप २, ३ खं., MW. च) । d) पाभे. पृ २७७ Q द्र. । e) उप. =द्वितीयाऽऽदि-विभक्ति- । f) उप. =प्रथमनिर्दिष्ट-प्रकृति- । g) =द्विरावृत्त-यज्ञ- । कस. । h) विप. (अग्नि-अष्टाङ्ग-) । तस. । -णम् इति वा. क्विवि. । i) वैप १ द्र. । j) तस. उप. =निर्देश- । k) °क्ष्य° इति आनसं. । l) विप. । तस. । m) विप. । बस. । n) कस. । o) तस. उप. बस. । p) तस. । उप. भाप. <प्र √ ध्वै (तु. संस्कृतः टि.) । q) वैप १, परि. च द्र. । r) तस. उप. =प्रमा- । s) विप. । बस. उप. =परीणाह- ।

अप्रमाद-तस्(ः) जैश्रौका ३६.	२२; हिध १, ४, ४९; ५, २१;	कौस् ६३, २५; -गे पावा २, ३,
अ-प्रमादिन् ^१ -दी आम्नि २, ७,	-तेषु वौश्रौ २८, ११ : ७.	अप्रयोग-भूत ^१ -तः मीस् १, २, ९.
१० : १३; बौध १, ५, ८८.	अप्रयतो(त-उ)पहत ^१ -तम् आपध	अ-प्रयोगा(ग-अ)ङ्ग ^१ -ङ्गम् मीस्
अ-प्रमाद्यत् - ^१ चन् आपश्रौ ५, २५,	१, १६, २१; हिध १, ५, २०.	११, ३, २२.
२०; भाश्रौ ७, २३, १२; हिश्रौ	†अ-प्रयाज ^१ -जः वैश्रौ १२, १५ : ७;	अ-प्रयोजक ^१ -कः पावा ३, १, २६.
६, ५, ३२; -द्यन्तः या ४, १९;	वाग् १, ४; -जाः काश्रौ ६, १०,	अप्रयोजक-त्व- -त्वात् मीस् ३, ४,
१२, ३७; -द्यन्ति या १२, ३७.	२१; कौग् १, ६, ५; शाग् १,	४२.
†अ-प्रमीत ^१ -तम् आपश्रौ ९, ११,	१०, ५; -जे आपश्रौ १०, २१, ८.	अ-प्रयोजन- -नम् पावा ४, १, १४७.
१७; वैश्रौ २०, २१ : १०; २३ :	अ-प्रयाण ^१ -णात् लाश्रौ १०, ५,	अ-प्रवद(त >) ती ^१ -त्यः आग् २,
६; हिश्रौ १५, ३, ३७.	१३.	७, ७.
अ-प्रमृष्ट ^१ -ष्टम् आपश्रौ ८, ११,	†अ-प्रयात ^१ -तम् अप ४५, २, १५;	अ-प्रवर्ग्य ^१ -ग्यः शाश्रौ ५, ९, १;
१६ ^१ ; भाश्रौ ८, १२, ३; १३,	अत्र १९, ५५.	१४, ५, २; -ग्याः आपश्रौ २२,
४.	अ-प्रयावन् ^१ > वा(व-आ)दि-	६, ११; हिश्रौ १७, २, ५८; -ग्ये
अ-प्रमृष्य ^१ -ष्यः वौश्रौ ३, २२ :	वर्जम् शौच ४, ५६.	शाश्रौ ५, १२, १; काश्रौ ८, २,
१४ ^१ .	अप्रयावा(व-आ)दि-वर्जित- -तम्	१५; आपश्रौ १३, ४, ५; १५, ३,
अ-प्रमेय- -यः अप ३, १, ८; -यम्	अप्रा ३, ४, ४.	१४; वैश्रौ १६, ४ : ३.
सु १, २.	†अ-प्रयावम् ^१ काश्रौ १६, ६, २;	अ-प्रवसत् ^१ -सतः वाधूश्रौ ३, १८ :
अ-प्रयच्छत् -च्छन् गौध १८, २३.	आपश्रौ ९, ८, ६; वौश्रौ १०,	७; -सन् आपश्रौ ५, २२, १३;
अ-प्रयत ^१ -तः आपध १, १४, २०;	१४ : २; १३, ४३ : ११ ^१ ; वैश्रौ	२३, ३; वैश्रौ १, १७ : ४.
१५, ८; १८; ३१, ४; बौध १,	२०, १५ : १; हिश्रौ १२, ४, ४;	अ-प्रवा(द >) दा ^१ -दाः निसू २,
२, २९; ३१; २, ४, २; विध	१५, २, ३५.	११ : ११.
२३, ५४; हिध १, ४, ४९; ६७;	अ-प्रयुक्त- -क्तः पापवा २; -क्तानि	अ-प्रविशीर्णा(णि-अ)ग्र ^१ -ग्रान्
७७; ८, २३; -तम् आपध १,	अत्र १, २१, ४; २२, ५; -क्ते	हिश्रौ २४, २, ६ ^१ .
१६, १४; २१; २९, १४; बौध	पापवा ४; मीस् १२, १, ११.	अ-प्रविश्य आपश्रौ १५, २१, १५;
२, १, ५०; हिध १, ५, १३; २०;	अप्रयुक्त-त्व- -त्वात् मीस् ६, ६,	वौश्रौ ९, २० : २५; भाश्रौ ११,
७, ७१; -ताः आपध २, १५,	३३.	२२, १९; वौग् ३, ४, ३६.
१९; हिध २, ३, ५३; -तान्	†अ-प्रयुच्छत् -च्छन् आम्नि ३,	†अ-प्रवी(त >) ता ^१ -ता काश्रौ ७,
बैग् ६७ : ११; माग् २, १४,	५, ४ : ११; बौपि १, ३ : २०.	६, १२; १५, ९, ५; -ताः काश्रौ
११; आपध १, १५, १३; हिध	अ-प्रयुज्य आपश्रौ १९, १५, १४; हिश्रौ	२२, ९, १३; आपश्रौ २२, २०,
१, ४, ७२; -ताय आपध १, १४,	२३, ३, ३३.	११; हिश्रौ १७, ७, २२; -ताम्
१९; बौध १, २, २९; हिध १,	अ-प्रयुज्यमान- -नः पावा २, ३, १.	काश्रौ १३, ४, १४.
४, ४९; -तेन वौश्रौ २७, ९ :	अ-प्रयोग ^१ -गः पावा १, २, ४५;	अ-प्रवृत्त- -त्तम् वौश्रौ ९, १७ : १;
५; आपध १, १४, १८; १६,	पापवा ३; मीस् ९, २, १०; -गस्	

- a) विप. । तस. । b) विप. । तस. उप. <प्र✓मी (हिंसायाम्) । c) विप. (दर्वुदायुवन) । तस. ।
d) पाभे. पृ १६० d द्र. । e) वैप १, परि. च द्र. । f) विप. । तृस. । g) तस. । h) वैप १ द्र. ।
i) अप्रवाचम् इति पाठः ? यनि. शोधः (तु. तैत्रा २, ४, २, ५) । j) विप. (शब्दार्थ-) । कस. । k) तस. उप. षप. ।
l) विप. । तस. । नलोपोऽत्र विमृश्यः । m) विप. । बस. उप. =कर्म-विशेष- । n) विप. । बस. । o) विप.
(मुञ्ज-प्रलव-) । तस. > बस. । p) पाभे. पृ २७६ f द्र. ।

-त्स्य हिश्रौ १५, १, ८३; -त्तान हिश्रौ १६, ७, ५; -त्ते मीम् ६, ४, ३३; ९, ४, ५०^१; १०, ७, ५८.
 अ-प्रवृत्ति^१ -त्तिः काश्रौ ४, ३, २२; ७, ५, २४; मीम् २, २, ४; ७, १, ९; २, २; ८, ४, २८; ९, २, ५१; १०, ७, ५७^१; ६१; ८, २२; १२, २, १४.
 अप्रवृत्ति-त्व- -त्वात् मीम् ८, १, २०.
 †अ-प्रवे(द>)दा^१ -दे आश्रौ १, ९, १; शाश्रौ १, १४, ४.
 अ-प्रवेदि(त>)ता^१ -ताम् आपथ १, १९, १३; हिथ १, ५, ११५.
 †अ-प्रशास्त्^१ -स्तम् अप ५१, ५, ३; बौध २, ३, ५४; -स्तानाम् अप ७०, ५, ४; -स्तेषु अप ६८, ३, ८.
 अ-प्रशान्त-स्वर^१ -रः अप ७०^३, ६, ७.
 अ-प्रशाम् -शान् पा ८, ३, ७.
 अ-प्रशीर्णा(र्ण-अ)प्र^१ -प्रे जैगृ १, २, १; -प्रौ काश्रौ २, ३, ३०.
 अ-प्रसंख्या- ख्यायाः अप ६५, २, ५.
 अ-प्रसङ्ग^१ -ङ्गः पावा १, १, ६३; ३, १, ७; -ङ्गस्य पावा ३, २, १६; -ङ्गात् काश्रौ ९, १२, २; -ङ्गे काश्रौ १, ३, २७; -ङ्गेन वौश्रौ २७, ११ : १९; २९, ८ : १६.
 अप्रसङ्गा(ङ्ग-अ)र्थ^१ -र्थम् पावा १, ४, १३; २, ४, ३२; ४, २, ९२; ६, १, ५.
 अ-प्रसन्न- -न्नेषु अप ५२, ११, ४.

अ-प्रसर्ग^१ -र्गे शाश्रौ ३, २१, ८; ९.
 अ-प्रसव^१ -वः काश्रौ १०, ७, १२.
 अ-प्रसाद^१ -दे अप ४८, २८.
 अप्रसाद मुख^१ -खः अप ७२, ३, १२.
 अ-प्रसारि(त>)ता- -ताभिः शाश्रौ १, १०, ५.
 अ-प्रसिद्ध- -द्धम् मीम् ७, ३, ४.
 अ-प्रसिद्धि- -द्धिः पावा १, १, १; ३८; २, १; ३९; ४२; ३, ९; ६२; ४, २; २३; २, १, ५१; ३, १, ९१; २, ८४; १०२; १२४^२; ४, १, ३; ८९; ९२; ६, १, ८४; १५८^३; ४, १; १४९; ७, ३, ४४; ५४^३; ८, १, ७१; २, १९.
 अ-प्रसूत, ता^१ -ताः शाश्रौ १४, ७, १; बौश्रौ ११, ७ : ४०.
 अ-प्रसृत- -तेन वौश्रौ ३, २८ : २५.
 अ-प्रसृप्त- -साय हिश्रौ १०, ४, ७०.
 अ-प्रस्ता(व>)वा^१ -वाम् शाश्रौ ५, २, ११.
 अ-प्रस्ता(व्य>)व्या- -व्याः लाश्रौ ६, १, १७; -व्ये लाश्रौ ६, १, १८; २०; २१.
 अ-प्रस्तुत- -तम् आपथ्रौ २१, ६, १८; ७, ४; १०; ८, ५; वौश्रौ १०, ५९; ९; वैश्रौ १२, ७ : ५; निस् ४, १ : ३०; -त्ते आपथ्रौ १८, ५, ७.
 अ-प्रस्थित- -तस्य पावा २, ३, ६१.

†अ-प्रस्रंस^१ -साय आपथ्रौ १, १२, २; २०, १५, ११; हिश्रौ १, ३, २३; ४, ३.
 †अ-प्रहन्^१ -हणम् आश्रौ ७, ११, २२; शाश्रौ १०, ६, १४; शागृ ६, ४, ४.
 अ-प्रहरण^१ -णम् काश्रौ १२, ५, १२.
 †अ-प्रहा (वन् >)वरी^१ -रीः^१ आपथ्रौ १८, १३, ८; वाश्रौ ३, ३, २, १३; हिश्रौ १३, ५, १४.
 अ-प्राकरणिक^१ -कान् माय १, ९, २; वागृ ११, २.
 अ-प्राकृत^१ -त्ते मीम् ९, २, ४८; -तेन मीम् ६, ५, १९.
 अप्राकृत-त्व- -त्वात् मीम् १०, ७, १८.
 अ-प्राज्ञ^१ -ज्ञः माशि १६, १०.
 अ-प्राणत्- -णत् आपथ्रौ १४, १२, २१; दाश्रौ ५, ३, १७; लाश्रौ २, ७, १६; -णन् आश्रौ २, ७, २; आपथ्रौ ९, ७, १; ३; ४; ८, २; भाश्रौ ९, ९, ६; १५; वैश्रौ १५, ९ : ५^१; ७, १०; २०, १२ : ७; हिश्रौ ८, ३, २८; १०, ७, ३; १५, २, २०; २३; ३०.
 अ-प्राण-हिंसा^१ -सायाम् आपथ १, २६, ६^१; हिथ १, ७, १७.
 अ-प्रा(ण>)णा^१ -णा अश्र ८, ९^१.
 अ-प्राणायाम-शस् (:) आपथ १, २६, १५; हिथ १, ७, २५^१.
 अ-प्राणिन्^१ -ग्नि आश्रौ ५, १३, १६;

a) अप्रवृत्तेन इति प्रयासं । b) तम. उप. भार. । c) अप्रतिपत्तिः इति प्रयासं । d) वैप १, परि. च द्र. । e) विप. (भिक्षा-) । तस. उप. <प्र√विद् [ज्ञाने] । f) विप. । तस. । g) विप. । तस. उप. वस. । h) तस. उप. <प्र√सु (अभिषेके) [तु. MW.] । i) विप. । वस. । j) विप. (प्रजा-) । तस. उप. <प्र√सू [प्रेरणे] । k) विप. (महानाम्न्यादि-) । वस. उप. नाप. । l) शोषार्थं वैप १ परि. अ-प्रहावरीः टि. द्र. । m) तस. । n) पाभे. पृ १४७ a द्र. । o) तस. उप. षस. । p) प्राणिन् इति पाठः ? यनि. शोषः । q) जाप्रा इति पाठः ? यनि. शोषः (तु. आपथ.) ।

माश्रौ ५, २, १४, १२; कौस् १४१, १३; -गिनाम् पा २, ४, ६; -गिनि पावा ५, २, ३६; -गिषु पा २, ३, १७; ५, ४, ९७; ६, ३, ७७; ८, ३, ७२.
 अ-प्राणि-वृष्टि^a -प्ल्याः पा ६, २, १३४.
 अ-प्राणिजाति^b -तेः पावा ४, १, ६६.
 अ-प्रातिलोभ्य^c -स्ये पा ८, १, ३३.
 अ-प्रादुष्कृत- -तानाम् हिश्रौ ६, ७, ८.
 अ-प्रादेशिक- -के या १, १३; २, १.
 अ-प्राप्त, मा- -सः कप्र ३, ८, ७; -सम् बौशु ५ : ५; मीस् ९, १, ३६; -सस्य अप ४८, ११८; -जा मीन् १, २, ९; ९, १, ४४; -ले वैगृ ६, १२ : ३; कप्र १, ९, १; पावा १, १, ४४; ५, १, ३; ६, १, २०४; ३, ९, ७१; मीस् ६, २, १९.
 अ-प्राप्त-त्व- -त्वात् पावा ७, २, १०; ६३.
 अ-प्राप्त-विधान- -ने पावा ६, ४, १७१.
 अ-प्राप्त-विधि- -धेः पावा ३, ४, २४.
 अ-प्राप्त-व्यवहार^c -राणाम् वाध १६, ८; शंध ३०१; बौध २, २, ३७.
 अ-प्राप्त-काल^d -लः विध २०, ४४.
 अ-प्राप्तकाल-त्व- -त्वात् मीस् ६, ८, २४; ९, ४, २९.
 अ-प्राप्त-गृहवृत्त^d -त्तः वैगृ ५, ९ : ६.
 अ-प्राप्त-व्यस^d -व्यसः अप ७०^२,

१०, ५.
 अ-प्राप्ति^b -सिः पावा १, १, ४९; ५६; ३, ३, १३२; ४, २१; ६७; ४, १, ९३; ३, १२०; ५, १, १९; ६, १, ४५; ७०; ७, ३, ४४; ५४; ११९; ८, १, १७; २, ८०; ३, ५९; -सेः काश्रौ ९, १३, २५; पावा १, १, ४२; ४३; -सौ अप ४२, १, ४.
 अ-प्राप्य बौश्रौ ११, ७ : ३९; पागृ ३, १४, ८; या ५, १२.
 अ-प्राप्य, प्या- -प्यम् कौगृ ३, १२, २१; -प्या वृदे ७, १५२.
 अ-प्रामाण्य^b -ग्यम् वाध १२, ४१.
 *अ-प्रा(प्र-आ)भिन्->^cमि-सत्य^c-
 -०त्य ऋपा ५, २८१.
 अ-प्रा(प्र-आ)भ्रैडित^c -तयोः पा ८, ३, ४९.
 अ-प्रायत्य^c -त्ये आपध १, ११, २५; वैध २, १२, २; हिध १, ३, ७५.
 अ-प्रायश्चित्त^b -त्तम् काश्रौ ७, ५, ९.
 अ-प्रायश्चित्त^c -त्तम् आपध १, १८, ११; हिध १, ८, ८७.
 अ-प्रायश्चित्तिक^c -कः बौश्रौ २८, ११ : १३.
 †अ-प्रायु^c -युवः बौगृ १, ३, ३५; अप ४८, ११५; निघ ४, १; या ४, १९७.
 अ-प्रावृत्^b -वृत्सु जैश्रौप ६.
 अ-प्रावृत्- -तः पागृ २, ७, ७.
 अ-प्रादनत्- -दनन् बौध ३, ९, १७.
 अ-प्राश्य आश्रौ ६, १३, ६.
 अ-प्रासङ्गिक- -कस्य बौश्रौ २९, ८ :

१९.
 अ-प्रासङ्ग्य- -ङ्ग्यः बौश्रौ १८, ३५ : ८.
 अ-प्रास्त^c -स्तम् हिश्रौ १०, ५, २६; ४३.
 अ-प्रिय^c -यम् बौश्रौ १८, १३ : १३; ४५ : ३४; ३६; ३९; विध ७१, ७४; वैध १, २, ८; -याः आपध २, ७, ५; हिध २, २, २६; -यै बौश्रौ २, ५ : ४; कौस् ५८, १; -येग वाधुश्रौ ४, ७९ : २; -यैः विध ९६, ३७.
 अ-प्रिय-वादि(न् >)नी^c -नीम् बौध २, २, ५९.
 अ-प्रिय-विद्व^c -द्वः बौश्रौ १८, ४५ : १३; ३३.
 अ-प्रिय-शी(ल >)ला^c -लाम् शंध ८२.
 अ-प्रेक्षण- -णम् कौगृ १, ९, १६; शांगृ १, १५, २१.
 अ-प्रेक्षा-पूर्व^c -वैम् वाध २१, १६.
 अ-प्रेषित- -तः आश्रौ १, ११, ११; ४, ७, ४; माश्रौ २, ४, ४, ३.
 अ-प्रेष, पा^c -षम् वाश्रौ ३, २, ६, ६१; -षाः आश्रौ १, ५, ३०.
 †अ-प्रोक्त- -क्ते द्राश्रौ, लाश्रौ १, १, ११.
 अ-प्रोक्षित, ता- -तम् आपश्रौ ५, १९, २^०; ६, २९, १२; बौश्रौ १०, ५० : २४; भाश्रौ ५, १२, ४; कौस् २, २८; आपध १, १५, १२; २, १२, ५; बौध १, ७, २०; हिध १, ४, ७१; २, ४, ४१; -ताभ्याम् काश्रौ ९, १०, ४; आपश्रौ १२,

a) षस. । b) तस. । c) विप. । बस. । d) विप. । तस. उप. बस. । e) वैप. १, परि. च द्र. । f) तस. उप. द्रस. । g) =संयत-भाव- । तस. उप. प्र-यत्- (<प्र/यम्) + भावे ष्यञ् प्र. । h) विप. (संयानी-इष्टका-) । बस. । i) विप. (कृष्णाजिन-) । तस. उप. <प्रा(प्र/अ)स [क्षेपणे] । j) विप. । उस. । k) विप. (पुहूरवस्-) । तस. । l) तस. उप. बस. । m) वा. किवि. । n) विप. । बस. उप. नाप. = प्रैष-मन्त्र- । o) सप्र. °तम् <>°ते इति पाभे ।

२२, २; बौध्रौ ७, १३ : १२;
वैश्रौ १५, २७ : २५; हिश्रौ ८,
७, ८; -ताम् आपश्रौ ११, ६, २;
माश्रौ २, २, २, ८; हिश्रौ ७, ४,
५७; -तायाम् वैश्रौ १४, ५ : २;
-ते^० वाश्रौ १, ४, ४, ११; वैश्रौ
१, १४ : १८; हिश्रौ ३, ८, ७८;
-तौ काश्रौ ९, १०, १०; आपश्रौ
१२, २३, २; बौध्रौ ७, १३ : १२;
१४ : ३; वैश्रौ १५, २९ : २; ४;
हिश्रौ ८, ७, २१.

अ-प्रोच्य आश्रौ १२, ९, १८.

अ-प्रोषित^० -ते काश्रौ ३, ४, २६.

अ-प्रोषिवस्^० -वान् शाश्रौ ८, २४,
११.

अ-प्लुत- -तः शौच १, ९७; -तम्
ऋप्रा ८, १; -तात् पा ६, १,
११३; पात्रा ६, १, १११; -ते
ऋप्रा ९, ४; पा ६, १, ११३;
-तेन शाश्रौ १, १, ४३.

अप्लुत-वचन- -ने पावा ६, १, १११.

अप्लुत-वत् शौच ४, १२०; पा ६,
१, १२९.

अ-प्लुता(त-आ)दि^० -दिः आश्रौ
५, ९, ६.

अप्लुत्योदकः^० कौश्र ३, ११, ३२.

अप्व, प्वा^० -पाउ १, १५४; -फँवः
मागृ १, ४, २; वागृ ८, २; -प्वा
कागृ ९, २१; मागृ १, ४, २१;
वागृ ८, २१; वृदे १, ११२; ८,

१३; निघ ५, ३; या ६, १२०;
९, ३२; -प्वाम् कौश्र १४, २१;
-फँव्ने निघ ४, ३; या ६, १२;
९, ३३.

अप्वा-दे(वि>)वी^१- वी ऋअ २,
१०, १०३.

अप्-शब्द-, √अप्स, *अप्-स-
√*अप् द्र.

अप्सररूपरस्य^० आपश्रौ १४, २९,
३५.

अप्सरस्^० -पाउ ४, २३७; -रसः
आश्रौ १०, ७, ४; शाश्रौ १६, २,
११; वाधूश्रौ ४, ११६ : २; वैश्रौ
१९, ४ : १६; आपमं १, ७, ८;
आमिगृ १, ५, २ : ३७; ३९:४१;
४३; ४५; ४७; मागृ २, १८, २१;

फँवगृ १, १८ : १; २; ४-८;
१०-१२; कप्र २, २, ३-८; शोध
११६ : १६३; १७३; फँअ ४,
३७; ७, १०९; १४, २; फँअ^०
३ : २९; ४९; अप्रा ३, ४, ११;

पावा ३, १, ११; -रसम् ऋअ
२, १, १६६; वृदे ५, १४९;
-रसाम् वृदे १, १२१; पागृ २,
६, २४; -रसौ साअ १, ३६१;
५७४; ५७५; -फँरःसु^१ कागृ
४१, १८; मागृ १, २२, ११; वागृ
५, ३०; -फँरस्सु^१ आपमं २, ७,
२४; वैगृ २, १४:२; -राः वृदे ७,
१४७; या ५, १३०; -रोभ्यः

मागृ २, १२, १७; अप ७, १, ७.
अप्सर-किन्नर^० -रैः अग १४, १,
१०.

अप्सरः-स्तव- -त्रे अप २०, ३, १.

√अप्सराय पावा ३, १, ११.

अप्सरो-देवता- > ०त्य- -स्यम्
अअ ४, ३७.

अप्सरा^० -रा बौध्रौ १८, ४४ : २; ९;
४५:१; -राभ्यः अअ ७, १०९१;
-राम् अअ ४, ३८१; -रायाम्
माशि १२, १; -फँरासु बौध्रौ
१७, ४१:२^१; आपमं २, ४, ६^१;
आमिगृ १, १, ४:३७^१; मागृ २,
२०:५^१; वैगृ २, ७:९^१; हिगृ १,
८, ४^१; १०, ४^१; जैगृ १, १२:८^१.

अप्सरान् माशि १२, ९.

अप्सद्य- , अप्सस- √*अप् द्र.

अप्-सा^० -प्साः साअ २, ३४५१.

अ-प्साति^० -तेः या ५, १३०.

अ-प्सानीय^१ -यम् या ५, १३०.

अप्सारिणी- √*अप् द्र.

अप्सु^३ -> आप्सव- -वः ऋअ २, ९,
१०६; साअ १, ५७१.

अप्सु-ज- प्रसृ. √*अप् द्र.

अप्सुरघोर, उपरस्य^० हिश्रौ १५,
७, १६^०.

अप्स्वाम्^० बौध्रौ १८, ५ : १११.

अ-फल, ला^० -लः निसृ १, ११:१८;
-ला या १, २०; -लाः अप ५७,
१, ७; विघ ३१, ९; -लान् गौघ

a) पाभे. पृ २८१ ० द्र. । b) विप. । तस. । c) वैप १, परि. च द्र. । d) त्रिप.

(प्रतिगर-) । तस. उप. बस. । e) पाठः ? आप्लुत्य, अव्युदकः इति द्वि-पदः शोधः (तु. शाण्ड ४, १२, ३२) ।

f) विप. (उपान्त्या-] ऋवृ-) । बस. । g) पाठः ? अप्सर-द्र- > -द्रः, उपरस्य इति द्वि-पदः शोधः (तु. सपा.

काठ. क. पाभे. [तु. वैप १, ३१३ h, i टि.] । h) सप्र. परस्परं पाभे. । i) पाभे. वैप १ परि. अप्सरस्सु

टि. द्र. । j) सप्र. ०रस्सु<>रासु इति पाभे. । k) द्रस. । ०रो किं इति पाठः ? यनि. शोधः । l) आ/प्सा

(दर्शने [तु. √स्पञ्ज] इत्येव धा. हसितोपसर्गः सन् यथायथं इतिपा कृत्येन च निर्दिष्टः द्र. (तु. या.; वैतु. ४४५

[१०१] नस्पूर्वकः √प्सा [भक्षणे] इति ?) । m) व्यप. (राज-विशेष-) । व्यु. ? । n) पाठः ? अप्साम् इति

शोधः (तु. ऋ १, ११, २१) ।

९,४८; -लाम् या १,२००†.	अप ३२,१,२; अर्ध २ : ३५.	अ-बहुवादिन् ^b -दिनः द्वाश्री ९,२, ७; लाश्री ३,६, ७; -दी गोग् १, ५, २५.
अफल-त्व- -त्वान् मीस् ११,१,३५.	अ-बन्ध- -न्धः गौध ८,१२.	अ-बहुब्रीह्यर्थ ¹ - र्थम् पावा ६, २, १८६.
अ-फल-युक्त ^a - -क्ताः काश्री १,२,४.	अ-बन्ध ¹ - -न्धः वाश्री १, ६, ५, १००†.	अ-बहुब्रीह्या(हि-अ)शीति ⁿ - -स्योः पा ६,३,४७.
अ-फलीकृत ^b - -तान् मागृ २,१४,२८; -तानाम् आपश्री १५, ५, २०; भाश्री ११, ५, २४; हिश्री २४, २,६; -तानि वैश्री १३,७:२१.	अब्-अर्थ- ✓*अप् द.	अ-बहु(हु-अ)क्षर ¹ - -रेण ऋप्रा ५,५.
अ-फलिन ^b - -ली शंघ ३७८.	अ-बर्हिस् ^c - -र्हिःषु कप्र ३,८,२.	अ-बहु-नञ्-सु-काल-सुखादि- पूर्व ^o - -वात् पावा ४,१,५२.
अ-फाल-कृष्ट ³ - -ष्टेन विध ९४,५.	†अ-बल,ला ¹ - -पाग ६,३,३४ ^m ; -लः कागृ २, ४; मागृ १, २, ६; वागृ ६, २०; लम् अप ७१, १९, १; -ला सु १०,४; -लान् लाश्री ९, १, १४; दंवि १, ६; -लानाम् लाश्री ९, ३, १६; -लाम् या ६, ३१; -लेन कौगृ ५,३,२४; आमिगृ ३, ६, १ : ८; २६; ३ : ३३; ८, ३ : ३९; बौपि १, २ : ८; ८ : ८; ९ : ३; १६ : २४; हिपि ७ : ६; दंवि १,७.	अ-वाध्य- -ध्यः अप ३६, २७, १.
अ-फे(न>)ना ^c - -नाभिः वाध ३, ३१; शंघ ५६.	अ-बल-वन्धन् - -न्वा दंवि १, ६०†.	अ-वान्धव ^c - -वः शंघ ३०२.
अ-फेना(न-अ)वस्त्राव ^d - -वम् वैगृ १,२ : ५.	अ-बलीयस् ^b - -वः वाश्री ३,२, ६, ३०.	अ-वा(ल>)ला ⁿ - -लाम् वागृ १४, १५.
अ-फेनिला ^b - -लाभिः विध ६२,५.	अ-बहिर-जानु ¹ - -नु वैगृ १,२ : ५.	अ-वाल्लिश ¹ - -शान् या ९ १०.
✓अष् पाधा. भ्वा. आत्म. ऋद्धे.	अ-बहिष्कार्य ^b - -र्यः गौध ८, १२.	†अ-विभीवस् - -भ्युषा या ४, १२० ^s .
†अ-बद्ध - -द्धम् काश्री २५,११,२५; आपश्री १०, १५, ७; बौश्री ६, ६ : २१; ९, १९ : ४७; १४, १ : ११; भाश्री १०,८,५; वैश्री १२,११ : ८; २१,१ : ४; हिश्री १०, २, २४; आमिगृ १,२, ३ : १९; बौगृ ३,४,२६; बौध १,७, ३१; ३,८,२१.	अ-बहु ¹ - -हुषु आश्री १,२, २४; पावा २,४,६२ ^r .	†अ-विभ्रत् - -भ्रत् आपमं १,९,१०; हिगृ १,१८,५.
†अ-बधिर ¹ - -रः भाशि ५२; -रम् कौगृ १, २०, ६; -राः आपश्री ५,१,७.	अ-बहु-त्व- -त्वे पावा २,४,६२.	अ-वीजिन् ^b - -जी शंघ ३७८ ^r .
अ-बन्ध ^c - -न्धः या १४,१०.	अ-बहु-गण ^k - -णात् पा ५,४,७३.	अब्-ईष्टका - ,अब्-उक्ता- ✓*अप् द.
अ-बन्धक ¹ - -पाग २,४,६९.	अ-बहु-पाद ¹ - -दम् आपध २, ६, ७; हिघ २,२,८ ^m .	†अ-बुद्ध - -द्धम् वाश्री १,३,७,२०.
अ-बन्धु ¹ - -न्धवः वाधूश्री ४, १८ : २५; २९.	अ-बहुभाषिन् ^b - -षी आश्री १,१२, ३०.	अ-बुद्धि ^c - -द्धिभिः पाशि २.
†अ-बन्धु-कृत् ¹ - -कृत् कौस् ३९,७;	अ-बहुवत् ¹ वृदे ३,८२.	अ-बुद्धि-पूर्व ¹ - -र्वम् आपध २, २६, १८; हिघ २,५,२१३.

a) विप. । तस. > तृस. । b) विप. । तस. । c) विप. । बस. । d) विप. । बस. > षस. ।
e) पाभे. वैप १ परि. तै ३, १, १, २ टि. द्र. । f) वैप १ परि. च द्र. । g) व्यप. । व्यु. ? । h)
तु. पासि. । i) विप. । तस. उप. बस. । j) तस. । k) विप. । बस. > द्रस. । l) विप. । बस.
> कस. । m) बहु^o इति पाठः ? यनि. शोषः (तु. आपध.) । n) तस. > द्रस. । o) विप. । तस. । उप.
द्रस. > बस. । p) व्यप. । वैप १, २९६ वृ टि. द्र. । q) पाभे. वैप १ परि. अपालाम् ऋ ८, ११, ७ टि. द्र. ।
r) विप. ([अमन्द-] स्तोम-) । तस. । s) पाभे. वैप १ परि. द्र. । t) तु. भाण्डा. प्रभृ.; वैतु. पासि.
अ-बुध- > आयुध्य- इति ।

२१, ७; भाश्री ११, २२, ९;
-यात् शाश्री १६, १, १५; १०, ९.
२भ-ब्रह्मचर्य^a- -याः या ४, १९.
अ-ब्रह्मचारिन्^b- -रिणे शुभ्र ४, २२०;
-री बौध ३, ३, ५; चव्यू २: २७.
१अ-ब्रह्मन्^c- -ह्य आपध १, ५, ७; हिध
१, २, ७,
२अ-ब्रह्मन्^d- -ह्यणः, -ह्या शाश्री १२,
२१, २१.
अब्रह्म-ज्य^e-ता- -तायै^f वाधूश्री ३,
७१ : ३.
अब्रह्म- (न्यु >) ण्युञ्जिन्^g - >
ण्जि-ता- -तायै^f शाश्री १६,
१८, ११^h.
अ-ब्रह्मसामन्ⁱ- -ञ्जि निस् २, ४: ३७.
अ-ब्राह्मण^l- -णः आश्री १२, ९, १३;
आपश्री ४, ११, १; १४, २; ७,
२७, १४; बौध १६, ३३ : ६;
११; ३४ : ३; ३५ : १३; ३६ :
३; १७, ३० : ७; ९; भाश्री ४,
१६, २; ७, २२, १५; माश्री १,
३, १, २८; वाश्री १, १, ४, १६;
हिश्री ४, ५, ५२; ६, ३, ३; ८,
७, ४३; शंघ १३५; आपध १,
२७, १०^j; गौध ५, ४३; १०,
४४; -णयोः अप १, ३२, ५;
-णस्य शाश्री १, ४, १७; आपश्री
४, ११, १; भाश्री ४, १६, २;
वाश्री १, ३, ४, २०; हिश्री ६,
३, ३; बौध १, १०, १६; २, २,

५४; मीस् ३, ५, २३; -णाः लाश्री
९, २, २५; -णात् आपश्री १०,
२०, १२१; बौध १, २, ४२; गौध
७, १; -णान् अप ४१, ४, ६;
गौध १०, १०; -णानाम् आश्री
१०, १०, १०; शाश्री १६, ९,
२२; आपश्री २०, ५, १७; ९,
१४; २४, १२; २५, २१; लाश्री
९, १०, १६; गौध १३, १४;
-णाय आपश्री १३, ७, ६; ७;
वैश्री १६, ८ : १; २; हिश्री १०,
४, ७२; द्राश्री १, २, १७; ६, ४,
१५; १७^k; लाश्री १, २, ११; २,
१२, १६; जैगृ १, १९ : ४१;
कौस् ९१, २०^k; आपध १, ३१,
२२; हिध १, ८, ४१; -णे जैगृ
२, १ : ३३; शंघ ३२५; विध
९३, १; भाशि ११२^k; मीस्
१०, ७, ८; -णेन बौश्री २०,
१ : ५७.
अब्राह्मण-ब्राह्मण-श्रोत्रिय-वेदपारग^k-
-गोभ्यः गौध ५, २१.
अब्राह्मण-वचन^l- -नात् गौध १३, ५.
अब्राह्मणा(ण-आ)दि- -दि हिध १,
७, ३५^l.
अ-ब्राह्मण-राजन्य^m- -न्यात् पा ५,
३, ११४.
अ-ब्राह्मण-विहितⁿ- -त्व- -त्वात्
निस् ४, ७ : ६.
अ-ब्राह्मणा (ण-अ) प्रतः कृत^o-

-तम् कौस् ७४, १२.
अ-ब्राह्म(ण >) णी- -णीभ्यः अप १,
४९, ६; -णीम् वैताश्री ३७,
१८; लाश्री ९, २, ६.
अ-ब्राह्मण्य^p- -ण्यम् आश्री ९, ३, २०.
अ-ब्रुवाण- -णाः या ९, ६.
अष्-लिङ्ग- √ *अप् द.
अ-भकार-पर^q- -रम् शुप्रा १, १६३.
१अ-भक्त^r- -क्तम् वाधूश्री २, १७ : १.
२अ-भक्त^r- -क्ते पावा १, १, ४७; ५१;
६, १, ७०; १३२; ७, २, ८२.
अ-भक्ष- -क्षः निस् ३, ८ : १८; मीस्
१०, ७, २३; -क्षस्य या ५, १३;
-क्षाणि शंघ ४१८; -क्षेभ्यः
निम् ३, ८ : १८.
अभक्ष-त्व- -त्वम् मीस् १०, ७, १८.
अभक्ष-भक्ष- -क्षः अप ३६, ८, ४.
अ-भक्षण^s- -णम् आश्री ५, ६, २४;
मुधप ८६ : ११.
अ-भक्षणीय- -यम् भाश्री ३, ६, १४;
-यान् काश्रीसं ३३ : १.
अ-भक्षयत्- -यन्तः लाश्री ८, १०,
१०.
अ-भक्षयित्वा शाश्री ८, ५, २.
अ-भक्षित- -तम् आपश्री १२, २९,
५; १४, २९, १; हिश्री १५, ७,
१४; -ते आपश्री १२, २५, ४;
वैश्री २१, १६ : १; -तेन काश्री
१०, ६, २; आपश्री १२, २७, ८;
१३, ८, २; वैश्री १५, ३५ : १०;

a) विप. । बस. । b) तस. । c) नाप. (वेदेतर-प्रन्थ-). । तस. । d) वैप १, परि. च द्र. ।
e) उस. उप. √ ज्या (अभिभवे) > कर्तरि प्र. [तु. माश १३, ४, २, १७]. । पूष. = यो ब्राह्मणः स्रष्टविद्वान् स्यात् तत्पर्याय
इति कृत्वा नम् क्षेपार्थे द्र. । f) सप्र. परस्परं पाभे. । g) उस. उप. नि √ उच्च [अभिभवे] > कर्तरि प्र. द्र., पूष.
कृते e टि. द्र. । h) षज-ता- > -तायै इति C. शोधः ? । i) नाप. (ब्राह्मणेतर-वर्ण-). । तस. । j) सप्र.
अब्राह्मणः < > अब्राह्मणादि इति पाभे. । k) द्रस. । l) षस. । m) विप. । बस. > द्रस. । n) तस. उप. तृस.
ब्राह्मण- = प्रन्थ-विशेष- । o) विप. । तस. > तृस. । p) तस. उप. < ब्राह्मण- (वर्ण-विशेष-). । q) विप. ।
तस. > बस. । r) = अविभागेन, सर्वकालम् इति अस. वा. क्रिवि. । उप. भाप. < √ अज् । s) तस. उप.
√ अज् + कर्तरि कृः । t) विप. । तस. ।

हिश्री ८, ८, २१; ९, २, २४; ३, ५८.
अ-भक्ष्य- -क्ष्यः आपध १, १७, ३८;
 हिध १, ५, ६९; -क्ष्यम् अप्राय
 ४, १; विध ६६, १२; वैध २,
 १५, १; -क्ष्यस्य विध ५, १७३;
 १७४; -क्ष्याः बौध १, ५, १२७;
 गौध १७, ३२; -क्ष्याणाम् सुधप
 ८७ : ७; -क्ष्याणि शोध २२८;
 ३४०; ४२४; -क्ष्येण विध ५,
 ९८.
अभक्ष्य-पातक- -केभ्यः कौगृ १,
 ८, १; शागृ १, १२, २.
अभक्ष्य-भक्षक- -कः शोध ३७७ :
 ५.
अभक्ष्य-भक्षण- -णम् गौध १९,
 ३; -जे अप ६८, २, १७; काध
 २७४ : ४.
अभक्ष्या(क्ष्य-अ)न्न-भोजन^१- -नम्
 वैध २, १२, ३.
अभक्ष्या(क्ष्य-अ)भोज्या (ज्य-अ) पे-
य-प्राशन^२- -ने आपध १,
 २६, ७८.
अभक्ष्या(क्ष्य-अ) भोज्या (ज्य-अ)-
पेया(य-अ)नाद्य-प्राशन^३- -ने
 हिध १, ७, १८८; -नेषु बौध ४,
 १, ७८.
अ-भक्ष्या(क्ष्य-अ)च्छादन^४- -नयोः
 पा ४, ३, १४३.
अ-भक्षर^५- -रम् बौध्री २५, ५ : २;
 हिश्री १०, १, २१; आमिगृ ३,
 ४, १ : १३; ५, ५ : २; बौपि १,
 ४ : २; ३, २ : ८; हिपि १ : ३;

गौपि १, २, ६.
अ-भक्षत्- -अन् काश्री ६, ७, ५.
अ-भद्र- -द्रम् अप ७०^३, ६, २; गौध
 ९, २१.
१अ-भय, या^१- -यः अप ५, ३, ५; ३२,
 १, १२^१; -यम् आश्री २, ५,
 १९^२; ३, ११, १; शाश्री;
 काश्री २५, १२, ४^३; आगृ २, ४,
 १४^४; मागृ २, ८, ६^५; -या सु
 २४, २; आगृ २, ४, १४^६; पागृ
 ३, २, २; अप ६३, ५, ५; अशां
 १६, १; -^१याः माश्री १, ६,
 ४, २१^१; कौगृ २, ३, १०; शागृ
 २, ६, १; मागृ २, ८, ६; -यानाम्
 कौसू १६, ८; -यानि अप ३२,
 १, १२; -याम् सु २४, ३; अप
 ६०, १, ६; ६९, ६, २; अशां १७,
 ५; -याय कौसू ५६, १३^१;
 अप ५२, ९, ३; -यायाम्
 अशां १८, ८; १९, ८; -ये
 आपश्री १४, ३२, ५; बौध्री
 २९, ५ : १९; वाश्री १, ५,
 ५, ७^१; हिश्री १५, ८, ३२; कौगृ
 ४, ४, ९^१; शागृ ४, १८, १^१;
 पागृ ३, २, २^१; -येन अशां
 १२, ५; -यैः कौसू १०५, १^१;
 १३९, ७; अप्राय २, ४; ६, ९^१;
 अप १७, २, ८^१; ३३, ६, ६;
 ४६, २, १.
अभय-काम- -मः कौसू ५९, २६;
 अश्र ६, ४०; ५०.
अभय-गण^२- -गः अप ३२, १, २९;
 अशां १८, ८.

†अभय-कर^३- -०र आपश्री ६, २७,
 १; वैश्री २, १० : १५; १६;
 हिश्री ६, ७, ८^३; -रः आपश्री ३,
 १२, १; भाश्री ३, ११, १; हिश्री
 २, ६, १३; -रम् अप ३३, ७, ४.
†अभय-कृत^४- -कृतौ आश्री १, ९,
 १; शाश्री १, १४, ४.
†अभय-तम^५- -मेन आमिगृ ३, ५,
 ४ : १०; बौपि १, ३ : १९.
अभय-दाक्षिण्य^६- -ण्यम् वाध ३०,
 ८.
अभय-दातृ- -ता वाध २९, १०.
अभय-दायिन्- -यी आमिगृ २, ७,
 १० : १२.
अभय-प्रद, दा- -०द अशां ४, २;
 -दम् अप ६, १, १३; २५, २, १;
 -दाम् अप ६०, १, ६.
अभय-प्रदान- -नम् विध ९२, १.
†अभय-सर्नि^७- -नि शाश्री ४, १३,
 १; आपश्री ६, ११, ५; बौध्री
 ३, ७ : २; भाश्री ४, २२, ४;
 वाधूश्री २, १६ : ३; हिश्री ३, ७,
 ९२.
अभया (य-अ) पराजित^८- -तौ अप
 ३३, १, ९; अशां २४, १.
अभया (य-अ) पराजिता (त-आ) युज्य^९-
 -ज्याः अप ३३, ६, १.
अभया (य-अ) र्थ^{१०}- -र्थम् अप ४, १,
 २२.
२अभय- (> आभय-, आभ्य-)
अभयजात- द्र.
अभयजात^{११}-> आभयजात्य-
 आभयजात- पाग ४, १, १०५^{१०};

a) कस. > षस. । b) द्रस. > षस. । c) सप्र. परस्परं पामे. । d) तस. > द्रस. । e) विप. ।
 तस. । f) वैप. १, परि. च द्र. । g) पामे. शोधश्च वैप १, ९६३ h द्र. । h) पामे. पृ १३ ० द्र. । i) सकृन्
 सप्र. आगृ २, ४, १४ पागृ ३, ३, ६ पापम् इति पामे. । j) पामे. वैप. १ परि. अभये तै ५, ७, २, ४ टि. द्र. ।
 k) नाप. (अभयकारिमन्त्र-समूह-) । षस. । l) सस. उप. = नैपुण्य- । m) द्रस. । n) व्यप. (ऋषि-विशेष-) &
 व्यु. ? । o) पागम. [पक्षान्तर] २अभय-, जात- इति, पाका. २अभय-, जात- इति च द्वे पदे ।

२,१११; -ता: बौध्रौष ४: १^०.
अ-भविष्यत् - ग्यति पा ७,३,१६.
अ-भस्मा(स्म-अ)स्थ्य(स्थि-अ)ङ्गार-
तु(ष>)षा^० - वा अप ३०,
 १,४.
अ-भस्त्र(क>)का-, °स्त्रि(क>)
 का- पा ७,३,४७^६.
१अ-भाग^१ - ने पा १,४,९१.
२अ-भाग,गा^६ - ऋगः आपथ्रौ ४,
 ११,१; भाथ्रौ ४, १६, २; हिथ्रौ
 ६, ३, ३; भाशि ५३: -गम्
 आपथ्रौ ४, ११, १^१; भाथ्रौ
 ४, १६, २; हिथ्रौ ६, ३, ३^१;
 आपमं २, ६, १२^१; आपथ
 २, १४, १५; हिथ २, ३, २६;
 गौघ २८, २४; -गाम् आपथ्रौ
 ९, १५, २२; भाथ्रौ ९, १८, ११;
 हिथ्रौ १५, ४, ४२.
अ-भागहारिन्^१ - रिणः विध १५,
 ३२.
अ-भागिन्^१ - गिनः विध १५, ३७.
 अभागि-त्व- -त्वात् मीस् ९, ३, १०;
 १०, २, १५.
 अभागि-प्रतिषेध- -धात् मीस् १,
 २, ५.
अ-भार्य^६ - र्यान् कप्र १, ६, ५.
अ-भाव- -वः काथ्रौ ४, २, २३;
 लाथ्रौ ३, ४, २४; पावा २, ३,
 ४६; ३, ३, १३; मीस् ६, १, ३७;
 ९, १, १०; -त्रम् ऋप्रा ६, ५०;
 -वस्य अप ७१, १८, ५; पावा
 ३, १, ९१; मीस् ८, ४, २१;

-वात् काथ्रौ १, १, ११; कौस्;
 -वाय आमृत् २, ४, ८: २४;
 -वे आथ्रौ ८, ४, २५; काथ्रौ.
 °अभाव- -वः पावा १, १, २७; २,
 २, २५; ३, १, ८३; ४, ३, १५३; ६,
 ४, १२०; ७, १, ७३; २, १; ३,
 ९२; पापवा ५, १३.
 °अभावा(व-अ)र्थ- -र्थम्
 पावा २, २, २५; २७; २८.
 अभाव-दर्शन- -नम् मीस् १०, ५,
 ४०; -नात् मीस् ४, १, ३६;
 १०, ५, ३५; १२, २, ५.
अ-भाव-कर्मन्^१ - मंगोः पा ६, ४,
 १६८.
अ-भाव-लक्षण^१ - णे पावा २, ३, ३७.
अ-भा(षा>)ष^६ - वाणाम् अप ६४,
 ३, ४.
अ-भाषयत् - यन् कप्र ३, ४, १०.
अ-भाषित-पुंस्क^१ - स्कात् पा ७,
 ३, ४८.
अभि, >भी^१ ऋथ्रौ २, ५, १२^३; ३,
 ७, ६; १०, ३१; १३, १८; ४,
 ४, २^१; ६, ३^३; ७, ४; ५, १०, २८;
 १५, २^३; ६, ४, १०^६; ५, १८; १३,
 १४; ७, ४, ३; ८, १; २; ८, १, २;
 १८; ६, १६; ११, १; ३; १२, २३;
 ९, ११, १५; १०, २, २०; १०,
 ६; ऋथ्रौ २, १५, २^३; ४^३; ४,
 १६, ५^३; ५, ६, २^१; ९, ७^३; ६, ४,
 १; १०, २; ७, १२, ४; २०, ३^३;
 २३, ४; ८, २४, १^३; ९, ७, ४; १३,
 १^३; १०, ८, १०; १२, २, ७; ९,

११; ११, २०; १२, ७; १२;
 १७, १; १४, ३३, ७^३; १५, १५,
 ६^०; १८, २, २; ७, १५; ८,
 ११; १२, ४; काथ्रौ ७, ७, १०^१;
 १०, १, ४; ३, २२^१; ९, २८^३;
 ऋथ्रौ १, १८, ३; ४; ३, ११,
 २; १५, ११^१; २०, १०; ४,
 १, १०^३; ५, ६, १; ११, ६; ६,
 १०, ४; ७, १७, १; ९, ४, १;
 ११, २२; १०, १५, १०; १८, ३;
 १९, ८^१; २४, ८; १२, १९, ५;
 १६, ७, ४; १७, ८, ४; १८, १;
 १९, २२, १२; १६; २३, १; २१,
 ३, १२; ४, २; २१, १८; २२, २६,
 १५; २८, १६; काथ्रौ १६०;
 बौथ्रौ २, ६; २५^१; १६; ३७^१;
 ऋथ्रौ ३, २६; ३; ३०; २०; ४, ६;
 ३६^१; ऋथ्रौ ७; २२; ९; ५;
 १४; १४; १५; १६; ५; ७, ५;
 ९; ७; ३०; १७; २०; ८, १;
 ७; २; १०; १६; ८; २; १०;
 २०; ११; २^१; ९, १०; ३०;
 १०, १७; ८^१; २५; ६-८;
 १४; १५^३; २६; ९^१; २८;
 १; ३५; १९; २१; २३; ऋथ्रौ ५;
 १९; २०; ५४; १८^१; ११, ४;
 २०^१; १२, ४; ८^१; ९; १६;
 १५; १५; १३, २१; ४^१; २९;
 ११^१; १४, १; २१^१; ५; १६^१;
 १०; १; ३३; १७; २३; २६;
 १६; ऋथ्रौ १०; १८; १७;
 १८; २२, १९; १५; २४, ९,

a) बहु. < आभयजात्य- । b) विप. (भूमि-) । बस. > द्वस. । c) पासि. निर्भङ्गका-, °ञ्जिका-
 इति । d) तस. । e) वैप १, परि. च द्र. । f) विप. । तस. । g) विप. । बस. । h) तस. > द्वस. ।
 i) तस. > घस. । j) विप. । तस. > बस. । k) लक्षणे कप्र. यथायथं द्र. । l) पाभे. वैप १ अधि शौ ७,
 ९, १ टि. द्र. । m) तु. सा L तैत्रा ३, ७, १४, ५], C. च; वैतु. PW. प्रसृ. अभि...शोयताम् इति ।
 n) वैतु. PW. प्रसृ. अभिसंतिष्ठते इति । o) वैप १ परि. अनु मा १९, ४० टि. द्र. । p) अभि, संशयीत
 इति पाठस्य स्थाने अभिर्ज्ञसति इति संभाव्येतेति C. ? ।

८; ३८ : ९; २५, १८ : १४;
 †भाश्री १, २, ११; ३, १०, २;
 १८, ११; ४, २, २^३; ७, १३,
 ४; ९, ५, २२; १०, ११, ११;
 १२, १५^३; १६, ६; माश्री २, १,
 २, ३३; ३, १५†^३; ४, ३†; †५,
 ४, ९; १७; ३, ५, १४†; ५, १,
 ६, २६†; ८, ११; †२, ३, ८; १२;
 ६, १, ३, ७; २, ३, १†; ८^३;
 वाधुश्री २, २२ : ३; ३, १२ : ३;
 ७५ : १२; ९९ : २; ४, ५ :
 ३^०; २७ : २; ५-८; ९^३; १०;
 १७; १९; ६५^३ : ७; ६७ : ९;
 ९४^४ : ८; वाश्री १, ३, ३, ९;
 ४, २, १६†; २, १, ८, ५†;
 ३, १, २, १†^०; २, ५, २०†;
 ४, १, २३^३; †वैश्री १२, ११ :
 ६; १२ : ११; १४ : १०^३;
 १७ : १५^८; १६, १ : ५^६; १८,
 ५ : ३; ११ : ७^३; १९, ५ : ४५;
 ४८^३; २१.१ : ६^३; हिश्री १, २,
 ५†; १६; ७, ७; १३; २, ६,
 ११†; ८, ४२†; ३, २, ५१†;
 ३, ४७; ४, ३, ५४†; ६, ३, २;
 †७, १, ६५^३; २, ३९; ९, ५,
 ४३†; १०, २, ६४; ११, २, २†;
 १५, १, ७५†; १६, ७, १४†; २२,
 ३, २७†; ४, १७^३; †२३, ४, २९;
 ५५; २४, १, २१†; जैश्री ९ :
 १८; १७ : ४†; जैश्रीका २२†;
 २६†; ४८; ५२; ६१†; ७२†;

†द्राश्री ६, १, १; ८, २, १५;
 †लाश्री २, ९, १; ४, ६, १४;
 ९, ९, २२; †वैताश्री २१, २;
 २३, १२; २६, ९^३; २९, १९;
 ३१, १८; २४; ३२, ५; ३३,
 २^३; ७; ३९, ६; ४०, ९; १०;
 ४१, ८; ४२, ५; ९; †लुस
 २, १० : १०; ११ : २; †निस
 १, १ : २१; ६, ४ : १८; ७,
 ४ : २२; †आपमं १, १, १;
 ३, १४; ४, ८; २, ११, २८;
 २०, २४^६; सु १७, ४; कौश्र ५,
 ८, ५†; †पाश्र १, ५, ११; ३, ४,
 ४; †आमिश्र १, ५, २ : ५३; ६,
 २ : १०; २, ४, २ : ४^०; ३, १,
 १ : ९; ५, ६ : १५; १७; ६, १ :
 २५; ४ : १४^६; ७, ४ : १०;
 आपश्र ४, १४^३; १६; †काश्र २२,
 १; २६, २^०; १२; ३७, ४; ४१,
 ८^६; ४५, १२; †बौश्र १, १,
 १४; ४, १०; २१; †बोपि १,
 ५ : ३; ४; ९ : २; १३ : १२^३;
 २, ४, १; भाश्र १, १४ : ५†;
 १५ : ६; ७†; १८ : ८†; २४ :
 १३^३; २, ११ : ९; भाश्र १,
 १३, ४^०; २२, ७†; वाश्र ५, १९^३;
 १५, १†; हिश्र १, १६, १७^३;
 १९, ७; २०, १; २८, १†^०; २, १०,
 ६^६, हिपि २३ : १९†; गौपि
 २, ६, २२†^०; जैश्र १, २० : ९†;
 †कौसू १४, ७; २४, ३; ४७,

१६†; ५९, १५; १९; \$८४,
 १५; १६; ९६, ३; अप्राय १,
 ५†^३; २, ६†; ३, ५; ८; †अप
 ३२, १, १३; १८; ३७, १, ९;
 १०, १; ४१, १, ८; ६७, ५, २;
 †असा १८, १; १९, ५; आपश्र
 १, ६, ३; बौध २, ६, ३२;
 †अश्र २, १, ५१; ७८; ८, १५;
 ४९; ९, ७५; ९८; १००; वृदे५,
 ११७†; ७, ८७; ८, १५†;
 †शुश्र १, २७५; ३, ९१; †वाअ
 २ : ८; ३९ : १३; †साश्र १,
 १६१; १६८; २३३; २३५; २६५;
 ३०९; ४६४; ५२८; ५४९; ५५०;
 ५५४; ५५६; २, २०६; ७७६^३;
 ११९३; †अश्र ७, १४; ८२; २०,
 ७; २२; ४८; ५१; ६२; १२१;
 †अपं २ : ७७; ८३; या १, ३;
 ६†; २, ५; ११†; †३, ११; १६;
 †६, ११^३; २६^३; ७, २†; ९,
 ३३†^३; †१०, ३^३; ३०; ३७;
 †११, ४२^३; ४५; १२, २; †अश्र
 २, ४६; ४, ९८; ५, १७; ४३; ८,
 ४४; १२, २४; १५, १७^६; १६,
 ५२^३; उसू ८, ३०†; †शुश्र
 ३, ९९^३; ४, ७५; ७८; ६, ५; १०;
 २४; २६; †तैश्र ४, ४२; ११,
 १३; अप्रा १, १, १३†; †शौच
 ४, ३; ४; पाग १, ४, ५८; †उनिस
 ४ : २४; २५^३; ५ : २४; ३३; ७ :
 १३.

a) पाभे. वैप १ अघि शौ ७, ९, १ टि. द्र. । b) स्वाअ. । c) पाभे. वैप. १ परि. अनु तै १, ७, ७,
 २ टि. द्र. । d) सपा. आपश्री १७, ८, ४ अघि इति पाभे. । e) तु. पृ २८६ m टि. । f) पाभे. वैप १
 परि. अपि शौ २०, १२७, १२ टि. द्र. । g) कप्र. (तु. Böht. [ZDMG ५२, ८४]; वैतु. संस्कृतां शब्दसूच्यां
 गतिरिति ?) । h) पाभे. वैप १ परि. अभिमन्त्रये टि. द्र. । i) तु. ऋ ७, १०४, २; वैतु. स्क. क्रिउ.
 इति । j) तु. ऋ ८, ६६, १०; वैतु. या. अभिमन्त्रि इति । k) तु. ऋ १०, १०३, १२; वैतु. या. अभिप्रेहि
 इति । l) तु. ऋ ६, ३७, ३; वैतु. या. अभिवहेयुः इति । m) तु. ऋ १, १६४, २८; वैतु. या. [स्क., दु.]
 अभिवावशाना इति । n) वैप १, ३१७ ० द्र. ।

अभि- -भिः पा १, ४, ९१; -भेः
या ५, २८; शुभ्रा ३, ६३; पा ६,
२, १८५; पावा ६, २, १८६.
अभि [,भी]-क^० - पा ५, २, ७४^१.
अभि√कम्, अभिकामयेत् विध ९६,
१८; अभिकामयेयुः विध ५, १४.
अभि√कम्, अभिकम्पयति काश्रौ
७, ८, १६.
†अभि√काश्, अभिचाकशीति या
१४, ३०; अप्रा १, १, १५; अभि-
चाकशीमि आपश्रौ १७, १८, १^३.
अभि√कृ^०, अभिकृणोतु अप १^२,
१, ४.
†अभिचक्रिरे अप १, ३८, १;
३; अशां ८, १, ३.
अभि-कृति^० -तिः निस् १, ५, १२;
शुभ ४, १८९; ऋप्रा १६, ८९;
९२; उनिस् २ : १८; पिं ४, ३.
अभि√कृष्, अभिकर्षन्ति शांय ६,
६, ५.
अभिकृषति हिश्रौ ११, ६, ३८;
अभिकृषेयुः लाश्रौ ८, ३, ७.
अभि√कल्प, अभिकल्पयेत् द्राश्रौ
१३, ३, ३.
†अभि-कल्पमान- -नौ बौश्रौ २,
१६ : १७; वैश्रौ १८, १७ : ४३;
१९, २ : १०.
अभि-कृतु^० - -त्ताम् बौश्रौ १८,
३१ : १६^१.
अभि√कन्द, अभिकन्दति वाधूश्रौ
४, २७ : १३; १६; अभि-
कन्दति बौश्रौ १५, १७ : २७;
अभिकन्दन्ति या ७, ७^१; अभि-
कन्दन्ति बौश्रौ १५, १७ : २७;

†अभिकन्द आपश्रौ १९, २५,
२१; बौश्रौ १३, ३८ : ४; वैताश्रौ
८, ९; सु ९, ३६; शांय १, १९,
११^०; अभिकन्देत् लाश्रौ ९,
९, २१.
अभिकन्दयति हिश्रौ २२, ६, ४.
†अभि-अचिकन्दत् आपश्रौ
१६, २०, १४; हिश्रौ ११, ६, ६१.
†अभि-कन्दत् - -न्दन् वाधूश्रौ ३, ५;
२; कौष्ट १, १२, ६^०; अत्र ११, ५.
अभि√कम्, अभिक्रमते ऋप्रा १५,
८; अभिक्रामति निस् १, १ : ८;
१३; १८; अप ४५, १, १६;
अभिक्रामन्ति बौश्रौ २, १३ :
३०; १४ : ३; ५; १, १६ :
४; ६; अभिक्रमेत् ऋप्रा ११,
३३; अभिक्रमेत् उस् ३, ४;
अभिक्रामेत् बौश्रौ २०, १३ : २;
४; २९ : १६; १७^३.
अभिक्रामयति भाग २, २९ : १०.
अभि-क्रम- -मः बौश्रौ २६, १२ :
१४; -मे ऋप्रा ११, ४४.
अभि-क्रमण- -णम् हिध २, १,
८२^१; गौध २, ३२.
अभि-क्रम्य आश्रौ १, ३, २५××.
अभि-क्रान्त- -न्तम् आपथ १,
२९, ७; हिध १, ७, ६३; -न्ते
ऋप्रा १५, १०.
अभिक्रान्तिन्- > ण्ति-तम-
-मः लाश्रौ ८, ६, १.
†अभि-क्रान्ति- -न्त्ये लाश्रौ १०,
५, ९; गौध २५, ६.
अभि-क्रामत् - -मन् आपश्रौ ३,
१६, १७; बौश्रौ २०, १३ : ३;

भाश्रौ २, १६, ५; आग २, ६, १३;
पाग २, ५, ३०; -मन्तम् पाग
२, ५, ३०.
अभिक्रामन्ती- -न्ती कौश्रु १, ५.
अभि-क्रामम् काश्रौ ३, २, २०; ६,
८, ४; आपश्रौ २, १७, ५; ६,
१०, ५; ६; ११, १४, ९; बौश्रौ
१४, २ : १६; २०, १३ : १;
२३, ५ : १; माश्रौ १, ३, २, २;
हिश्रौ २, २, २८.
अभि√कुष् > अभि-कुद् - > ङ्ङा-
(ङ्-अ)वगोरण^० - -गे गौध
२१, २०.
अभि√कुग्, अभिक्रोशन्ति बौश्रौ
१८, २४ : २१; अभ्यक्रोशन् वाध
५, ८^१.
अभि-क्षण- -णम् या २, २५.
अभि√क्ष्, अभिस्त्रन्ति वैताश्रौ
२४, १^१.
अ-भिक्षि(त>)ता- -ता बौध १, २,
५७.
अभि√क्षिप् पा १, ३, ८०.
अभि√खन्, अभिखनेयुः आपश्रौ
१०, २०, ७.
अभि√ख्या > अभि-ख्या^१ - -ख्या-
निघ ३, ९^१.
अभि-ख्याप्य शंघ ४५५.
अभि√गच्छ्, गम्, अभिगच्छन्ति
अप ३५, २, २; †अभिगच्छत्^१
शाश्रौ ४, ११, ६; माश्रौ १, ४,
३, ९; वाश्रौ १, १, ४, २१; लाश्रौ
२, १, ७; पाग १, ३, १४; माग
२, ११, १८; अभ्यगच्छत् वृदे ४,
९५; ५, ५२; ८, ३; अभिगच्छेत्

a) वैप १, परि. च द्र. । b) प्रायेण धा. करणे वृत्तिः, अप १, ३८, १ अशां ८, १ तु हिंसायाम् इति विशेषः । c) नाप. (छन्दोविशेष-) । d) विप. (शनु-) । वैप १, परि. च द्र. । e) पाभे. वैप १ परि. अक्षिस्कन्द शौ ५, २५, ८ टि. द्र. । f) सप्र. नाऽभिक्रमणम् <> अ-विप्रक्रमणम् इति पाभे. । g) लृप. उप. <अव√गुर। h) सप्र. तैत्रा ३, ७, १३, ३ उपस्त्रन्ति इति पाभे. । i) नाप. (प्रज्ञा-) । वैप १ द्र. । j) पाभे. वैप १ परि. अप्रीतन टि. द्र. ।

असां १५, ६; वाध २१, १-३;
१६; विध ६, १९; सुधप ८६: ५;
अभिजगाम वृदे ४, ४८; अभि-
जग्मतुः वृदे ५, ६१; ७, ६४;
८९.

अभि-गच्छत्- -च्छन् विध २८, १९;
या ६, २७^५.

अभि-गत- -तः आश्रौ ८, ३, २२;
शांश्रौ १२, २३, २; वैताश्रौ ३२,
२३.

अभि-गम- (> आभिगामिक-पा.)
पाग ७, ३, २०.

अभि-गमन- -नम् गौध १८, १६;
पावा ५, १, ७४; -नस्य आमिगृ
२, ७, ९: १७; -ने कौगृ १, २,
२; शांश्रौ १, ६, २; लुध ४८:
सुधप ८५: २.

अभि-गमयत्- -यन् आपश्रौ १९,
२२, ३; वौश्रौ १३, २८: १४;
४२: ६: २६, ६: १०; हिश्रौ
२२, ४, १६.

अभि-गम्य कौगृ ३, ११, २; आमिगृ.

†अभि ✓ गा, अभि...जिगति आश्रौ
४, ७, ४.

अभि...गात् या ६, २७; अभि-
गा: वैताश्रौ १९, १८^७.

अभि-गार्हपत्य^८- -त्यस् हिश्रौ १, ६,
९०; हिगृ २, ६.

अभि ✓ गाह् > षअभि-गाहमान-
-नः साञ्च २, १२०५.

अभि ✓ गृ > अभि-गूर्य > र्या या
८, ३१^९.

†अभि ✓ गृ (शब्दे), अभि...गृणात्

या ११, ४९^{१०}; अभि (गृणात्)
निस् १, ७: १४; वृदे ५, ३७;
अभि...गृणन्तु आश्रौ ४, १२,
२; अभि...गृणीहि आश्रौ ४,
१२, २^{११}; अभि(गृणीहि) शुञ्च
३, ७२.

अभि-गर्- -रः बौश्रौ २, ३: ११^{१२};
माश्रौ १, ८, १, १^{१३}; वाश्रौ १,
६, १, २^{१४}; ३, २, ५, ३३: ३५;
वैश्रौ १२, १: १७^{१५}; द्राश्रौ ११,
३, १; ३; १२; लाश्रौ ४, ३, १;
४; १३; शुप्रा ४, ६६^{१६}; -^{१७}श्रौ^{१८}
शांश्रौ १०, १८, ४; वौश्रौ १९,
७: ४२; वैगृ ५, ४: १३.

अभिगर-प्रभृति- -तयः द्राश्रौ
११, ३, २३; लाश्रौ ४, ३, २२.

अभिगर-श्रुति- -ते: काश्रौ २४,
४, ४९.

अभिगरा(र-आ)दि- -दि काश्रौ
१३, ४, २.

अभिगरा(र-अ)पगर- -रौ काश्रौ
१३, ३, ६; लाश्रौ १०, २०, १०;
१२; निस् १०, १२: ८; ९; १५;
१७.

अभि-गृणत्- -णन्तः^{१९} वौश्रौ १,
१९: ३८; कौस् ६.९; शुप्रा ३,
९९.

अभि ✓ गृह्, अभिगृह्णीते वैश्रौ १५,
३४: ४; अभिगृह्णाति आपश्रौ
२, १, ८; २, २; बौश्रौ; अभि-
गृह्णीतः आपश्रौ १२, २६, १०;
हिश्रौ ८, ८, ३; अभिगृह्णीयात्
बौश्रौ २९, ५: ८; वाधूश्रौ ३,

१९: १९; वैश्रौ २१, १५: १०.

अभि-गृहीत- -तान् वैश्रौ ९, ५: ९.

अभि-गृह्य आपश्रौ ५, ११, ६; ९,
१७, २; ३; १०, २३, २; बौश्रौ.

अभि गृह्यमाण- -णम् आपश्रौ ४,
५, ३; माश्रौ ४, ६, ६.

†अभि-ग्रह^१- -हाय आपमं २, ७,
२१; हिगृ १, १०, ४.

अभि-ग्रहण- -णे बौश्रौ २३, ९:
२०; -णेन बौश्रौ २६, १२:
१८.

अभिग्रहणा(ण-अ)र्थ^१- -र्थः
वौश्रौ २६, ९: १२.

†अभि-ग्राहि(न् >) णी^{१२}- -णी:
वौश्रौ १७, ४१: १; आपमं २,
७, २१-२३; आमिगृ १, ३, ३:
१५; भागृ २, २०: ४; हिगृ १,
१०, ४.

अभि ✓ गृ (निगरणे), अभिगिरति वैश्रौ
७, १: ६.

अभिगृणात् कौस् ४२, १७^{१३}.

अभि ✓ गौ, अभिगायते आपश्रौ ५,
१४, ४; अभिगायति जैश्रौप
१०; २०; द्राश्रौ १२, २, १४^{१४};
वैताश्रौ २७: ९.

अभिगीयते हिश्रौ ११, ७, २१.

अभि...गीयते आश्रौ २, १२,
६; ५, ५, २१; ८, १३, ३१; आगृ
१, ३, १०.

अभि-गीत- -तम् उस् ८, ३६.

अभि ✓ ग्रस्, अभ्यग्रस्त वाधूश्रौ ४,
३०: १९.

अभि-ग्र(स्त >)स्ता- -स्ता या ५,

a) अधि इति RN. । b) पाभे. वैप १ परि. अतिगाः ते ३, २, ५, ३ टि. द्र. । c) आभिमुख्ये अस्.

(पा २, १, १४) । d) या. [पक्षे] स्मत् अभि इत्यप्याह । e) पाभे. वैप १ परि. अभि...गृणीहि वै १५, २, १

टि. द्र. । f) वैप १, परि. च द्र. । g) =अभिगरापगरौ (तु. C.) । h) पाभे. वैप १ परि. अभिगृणन्तु

शौ १८, १, ५२ टि. द्र. । i) नाप. (देवता-विशेष-) । गम. उप. कर्तरि अच् प्र. । j) विप. । बस. । k) उप.

कर्तरि णिभिः प्र. इति विशेषः ।

२१.

अभिघात-, घातम्, षन्त्-
अभि✓हृत् द्र.

अभि✓घुष् > अभिघुष्ट- षम्
बाध १४, ९.

अभि✓घृ, †अभिजिघर्मि^१ आश्रौ १,
१३, १; वाश्रौ १, १, ५, १८.

अभिघारयति काश्रौ ३, ३,
१२XX; आपश्रौ; अभि...घार-
यति आपश्रौ ३, १, ४; अभिघार-
यतः बौश्रौ ५, ८ : १५; हिश्रौ ५,
२, ३७; †अभिघारयामि आपश्रौ
२, १०, ४; बौश्रौ; माश्रौ ५, २,
१५, १९^२XX; अभिघारयेत्
आपश्रौ २, १७, ७; ३, २, ८; १८,
२१, ११; काठश्रौ; अभि...घार-
येन् आपश्रौ ९, १६, ११; माश्रौ
९, १९, ८; हिश्रौ २, ३, ४.

अभिघारण- -णम् काश्रौ १, ९,
१०; ३, ३, ९; ५, ९, ४; ६, ६,
२३; काठश्रौ १४; ६३; १०७;
वाश्रौ १, १, १, ३४; आपश्रौ ७, ८;
-णस्य मीस् १०, ३, ३८; -णात्
माश्रौ १, ७, १, ३५; -णानि हिपि
१४ : १९; -ण आपश्रौ ७, १२,
९; बौश्रौ २०, २९ : १९; मीस्
४, १, ३३.

अभिघारयत्- -यन् बौश्रौ ४, ४ :
२४; माश्रौ १, ७, १, ३०.

अभिघारित, ता- -तः बौपि १, १४ :
८; -तम् वाधूश्रौ ३, ३४ : ९;
वैताश्रौ ३, ७; कौश्रौ १, ५, ८; बाध

१४, २९; -तान् आपश्रौ ८, १०,
९; वैश्रौ ९, २ : ७; वाश्रौ १४, १८;
जैश्रौ १, २१ : १८; -तानाम् शंघ
१७६; -तानि आमिश्रौ २, ५, ८ :
९; बौश्रौ २, ७, १५; -ताम् बौश्रौ
२५, २ : ९; २६ : ११; बौश्रौ २,
७, १७; -ते हिश्रौ २१, २, ५२.

अभिघार्य आश्रौ २, ६, १०; शाश्रौ.
अभिघार्य- -र्यान् माश्रौ ८, २१, ३.

अभि✓घ्रा, अभिजिघ्रति वैश्रौ १,
१० : १४; बौश्रौ २, १, ५;
†अभिजिघ्रामि आपमं २, १२,
१; आमिश्रौ २, १, ५ : ३६; बौश्रौ
२, १, ५; माश्रौ १, २७ : १६; १७;
वाश्रौ ३, ९; हिश्रौ २, ४, १७^३; गोश्रौ
२, ८, २२; जैश्रौ १, ८ : १२;
अभिजिघ्रेत् द्राश्रौ २, ३, १४.

अभिघ्राय^४ आमिश्रौ २, १, ५ : ३७.
अभि-जिघ्रण- -णम् गोश्रौ २, ८,
२४^२.

अभि-जिघ्रय^५ हिश्रौ २, ४, १७; गोश्रौ
२, ८, २२.

अभि✓चक्ष, †अभिचक्षे आश्रौ ६,
१४, १६; आपश्रौ ९, २, ६;
माश्रौ ९, ३, ८; माश्रौ ३, २, ८;
हिश्रौ १५, १, ४५; अप्राय ४,
३; या १०, २२; १२, २७.

अभि-चक्षे^६ भाशि ३४^१.

अभि✓चइ, अभिचरति वाश्रौ २,
१, २, २८; अभिचरतः बौश्रौ ७,
२ : १०; वैश्रौ १८, ७ : १८;
अभिचरन्ति आपश्रौ ११, ६, २;

माश्रौ १२, ६, ५; अभिचरेत्
काश्रौ २२, ११, २९; आपश्रौ;
अभिचरेयुः शाश्रौ १४, २२, ६.
अभिचचार बौश्रौ १७, ५४ : ४;
५^३; ६^३; ७; अभिचरेः ऋअ २,
१०, ५६.

१अभि-चरण^७ > आभिचरणिक^१-
-कम् काश्रौ १, १०, १४; -केषु
आपश्रौ १९, १६, ६^६.

अभिचरणीय, या^८ -यः निसू
२, ३ : १७; -यम् बौश्रौ १८,
३६ : १२; १३; १५; ४८ : १;
३; ५; ७; १०; -याः शाश्रौ १४,
२२, ४; लाश्रौ ६, २, १०; छुस्
१, ४ : ८; २४; -यासु बौश्रौ
१४, २० : २६; माश्रौ ५, १,
५, ३; -येषु बौश्रौ २, २ : २२;
द्राश्रौ १, १, २०; लाश्रौ १, १,
१९; ६, ९, १२; ७, १०, ११;
बौध १, ६, ९; -यैः बौश्रौ १८,
३६ : १; -यौ निसू ७, १२ : १.

अभिचरणीय-शिल्प^९-

-ल्पानि बौश्रौ १४, २० : १४.

२अभि-चर(ण>)णी^{१०}-

अभिचरणि(क>)का^{११}-कासु
हिश्रौ २२, २, ११^६.

अभि-चरत्- -रतः काश्रौ १५, २,
१०XX; आपश्रौ; -रता बौश्रौ
१४, १८ : ११; -रन् आश्रौ २,
११, ७XX; काश्रौ; -रन्तः आप
४१, ३, ३; -रन्तम् बौश्रौ १३,
१५ : ३^१.

a) पाभे. वैप १ परि. अभिघारयामि टि. द्र. । b) तु. आपमं. प्रभृ.; वैतु. Böht [ZDMG ५२, ८७] अभिजिघ्रय इति । c) सपा. अभिघ्राय <> अभिजिघ्रय (वैतु. Böht [ZDMG ४३, ६००] हिश्रौ. षजिघ्राय) इति पाभे. । d) वैप १ द्र. । e) गस. उप. भाप. । f) विप. (मन्त्र- [काश्रौ.], कर्मन्- [आपश्रौ.]) । तदस्यप्रयोजनमित्यर्थे ठञ् प्र. (पा ५, १, १०९) । g) सप्र. आभिचरणिकेषु <> अभिचरणिकासु इति पाभे. । h) वैप १, परि. च द्र. । i) कस. । j) विप. (क्रिया-) । गस उप. करणे ष्युद् प्र. । k) स्वार्थिके के प्र. हस्तः ।

अभि-चरितवै वैश्रौ १८, १ : ३.
 अभि-चर्यमाण- -णः काश्रौ १५,
 २, ९^a; आपश्रौ; -णस्य
 शांश्रौ १४, २२, ६; काश्रौ २३,
 ५, २७; माश्रौ ५, १, ६, २५; ३०;
 अशां १७, १; २; १९, २; ३.
 अभिचर्यमाण-यज्ञ- -ज्ञः निस्
 ९, ६ : १३.
 अभि [, भी]- चार^b- -रः माश्रौ १, ६,
 १, २१[†]; वैश्रौ १८, १ : ३[†];
 अप २८, २, ५; ३६, ८, २; बौध
 २, १, ४७; -रम् विध ५४, २५;
 आज्यो २, ४; -रात् गोष्ट ४,
 ६, २; अप २, ६, ५; २०, ७, ५;
 ३३, २, ४; -रे अप २१, ३, १;
 २५, १, ११; २७, १, ३; ३१,
 ८, ४; वाध ५, ४; -रेषु वैताश्रौ
 २, १०.
 आभिचारिक^c- -कम् कौष्ट
 १, ६, ७; शांष्ट १, १०, ९; कौस्
 २५, २७; ऋप्र ३, ८, ४; अप
 २८, २, २; शुअ १, ८८; ४३८;
 २, २६९; -कान् वैताश्रौ २, १०;
 अप २३, १३, १; -के अप २६,
 ३, ५; शुअ १, ४५५; ४५९; -केषु
 हिश्रौ २२, १, ३; कौस् ४७, १;
 अप्राय ६, ६^d.
 अभिचार-कल्प^e- -ल्पः चव्यु
 ४ : ८.
 अभिचार-काम- -मस्य वैताश्रौ
 ४३, २५.
 अभिचार-देश- -शाः कौस् ३९,
 ३१.

अभिचार-बल-कर्मन्^f- -र्मसु
 विध ३७, २६.
 अभिचार-ब्रह्मवर्चस-प्रतिष्ठा^g-
 काम - -माः काश्रौ २, ३, ५.
 अभिचार-विधि^h- -धौ अप २५,
 १, ६.
 अभीचारा(र अ)नुव्याहारⁱ- -रौ
 आपध १, २९, १५; हिध १, ७,
 ७२.
 अभि-चारक- -कम् आज्यो १०, ५.
 अभिचारिका^j- -काः वृदे ४,
 ११८.
 अभि-चारि(न् >)णी^k- -णीः वैगृ
 ६६ : १.
 अभि^l√चि(चयने), अभिचिनुयुः
 आपश्रौ १९, १५, ८; हिश्रौ २३,
 ३, २९.
 अभि^m√चुद्, अभिचोदयन्ति ऋप्रा
 १५, ४.
 अभि-चोदित- -तः अप ५८, १, २.
 अभिⁿ√च्छद्, अभिच्छादयति आपश्रौ
 २, ९, ३; कौस् ७९, ७; अभि-
 च्छादयेत् हिगृ १, १६, ६.
 अभि-च्छादयत्- -यन् वैश्रौ ५,
 ६ : ५.
 अभि-च्छाद्य आपश्रौ १, १६, ११.
 अभि^o√जन्, अभिजायते विध ५२,
 १५; ९०, २; २३; अप ३५, १,
 १३; वृदे ५, १६६; †अभिजायसे
 कागृ ३६, ११; शंघ २८६.
 अभि-जन^p- -नः पा ४, ३, ९०;
 -नस्य विध ७१, ६; -नान् आपश्रौ
 ९, ११, १; -नेन लाश्रौ ८, ६, १.

अभिजन-विद्या-समुदेत्^q- -तम्
 आपध १, १, १२; हिध १,
 १, ११.
 अभि-जा(त >)ता- -ता आगृ १,
 ५, ४[†].
 अभि^r√जप्, अभिजपति वैश्रौ २१,
 १८:५; हिगृ १, १५, ६; अभि^s...
 जपति हिगृ १, १५, ८; अभि-
 जपेत् विध ७३, २६.
 अभि^t√जभ्, अभिजभ्भातः कौस्
 ९६, ३.
 अभि^u√जि, अभिजयति आपश्रौ ७,
 १, १; बौश्रौ; अभि^v...जयति
 आपश्रौ २१, १, १; २२, १५,
 १; २३, ५; २४, १०; बौश्रौ
 १४, ११ : ३३; वाधूश्रौ ३, २१ :
 ९; ४, १५ : ११; १० : ५; हिध
 २, ५, १७८; अभि^w...जयन्ति
 आपश्रौ २१, १५, १; २३, ९, १;
 १४, ११; हिश्रौ १८, ४, ६५;
 अभिजयाम वाधूश्रौ ३, ३९ :
 २२; अभि^x...अजयत् वाधूश्रौ
 ३, २१ : ३; अभि^y...अजयन्
 वाधूश्रौ ३, २१ : ५; अभिजयेत्
 †बौश्रौ २९, १३ : ६; ७; वाधूश्रौ
 ४, १६ : १३; अभि^z...जयेत्
 वाधूश्रौ ४, १० : २; अभिजये-
 यम् बौश्रु २० : १.
 अभ्यजैषीत् आमिगृ ३, ५, ८ :
 १२; १५; ६, ४ : ९; १०; बौपि
 १, ७ : १४; १६; १३ : ९.
 अभि-जिगीषत्- -षतः शांश्रौ १४,
 ४२, १५.

a) अभिचार्थ^o इति पाठः? यनि. शोधः (तु. Web.) । b) भाप. > नाप. (श्येनयागादि-प्रयोग-) ।
 c) विप. (मन्त्र- , यजुस्-) । तदस्यप्रजोजनमित्यर्थे ठञ् प्र. । d) अभि^o इति पाठः? यनि. शोधः । e) षस. ।
 f) द्वस. > षस. । g) द्वस. । h) विप. (विद्या-) । i) विप. । गस. उप. धिनुण् प्र. उत्सं. (पा
 ३, २, १४२) । j) नाप. (पूर्वबान्धवोषित-) देश- , बान्धव-) । गस. उप. अघिकरणे अपादाने वा ञञ् प्र. । k) विप.
 (संस्कृत्-) । द्वस. > तृस. ।

१†अभि-जित्^a - जित् आश्रौ ८, ५, १××; शाश्रौ; -जितः शाश्रौ १३, २१, ६××; काश्रौ; -जितम् आश्रौ १०, ३, २६××; शाश्रौ; -जिता आपश्रौ १७, २६, १२××; बौश्रौ; -जिति शाश्रौ १२, ६, ७; लाश्रौ; -जिते शाश्रौ १, २६, २०; वैश्रु.

१आभिजित्- पा ४, ३, ३६^b; -तानि^c द्राश्रौ ८, ३, ६^d; १८^e; लाश्रौ ४, ७, १; ३.

२अभिजित्- पा ४, ३, ३६.

अभिजित्-पुण्य-सौम्य^e - म्येषु अप ३१, ५, २.

अभिजित्-प्रतिरूप^f - पः क्षुस् २, १ : ११.

अभिजित्-प्रभृति- -ति शाश्रौ १३, १७, ३.

अभिजित्-स्थान- -ने काश्रौ १३, २, १६; २४, ४, ५; लाश्रौ १०, १३, ४.

अभिजित्-स्वरसामन्^g - म्ना निस् ५, १० : ३.

अभिजित्-द्वादशाह^h - हः क्षुस् २, १६ : १६.

अभिजित्-विश्वजित्ⁱ - जितोः आश्रौ ११, ३, २; १२, १, ४; वैताश्रौ ३५, १७; -जितौ आश्रौ ११, २, १९; ५, ५; शाश्रौ १३, १६, २; २९, २३; १६, २०, १८; २५-२६, ३; २८, ३; २९, १६; काश्रौ २२, १, ६; २४, २, २; ३,

८; ६, २७; आपश्रौ २३, २, २०; द्राश्रौ ८, २, १३; लाश्रौ ४, ६, १३.

अभिजित्-विश्वजित्-विषुवत्^j - वन्ति आश्रौ १२, ७, १४.

अभिजित्-मुहूर्त^k - तेन अश्रौ १३, १, ९.

अभि-जि(त>)ना- -ता कौस् १०६, ७^l.

अभि-जिति- -न्यै आपश्रौ १४, १९, ९^m; २२, १, १२; बौश्रौ १४, ४ : २९; हिश्रौ १५, ५, २१ⁿ; १७, १, १५; यौध २५, ६^o.

अभि-जित्य निस् ३, १ : १६.

अभि-जेतुम् निस् ३, १ : १६.

अभि-जिघ्रण- अभि ✓ प्रा द.

३अभिजित्^p - > २आभिजित^q -

-ताः^r बौश्रौप्र ११ : १.

आभिजित्य- पा ५, ३, ११८.

अभि ✓ जिन्व्, अभि ✓ जिन्वताम् हिश्रौ ६, ३, २^m.

अभि ✓ जुप् > अभि-जुष्ट- -ष्टः वैताश्रौ १०, १७ⁿ.

अभि-जुहत्- अभि ✓ हु द्र.

अभि ✓ ज्ञा, अभिजानाति आपश्रौ १२, ५, १××; बौश्रौ; अभिजानात् वाधृश्रौ ४, १०८ : २१.

अभि-ज्ञा- > ज्ञा-वचन- -ने पा ३, २, ११२.

अभि-ज्ञाय आपश्रौ २, १२, ६××; भाश्रौ.

†अभि-ह्रु^o - ह्रु आश्रौ ४, ७, ४; शाश्रौ १२, २४, २^p.

अभि ✓ ज्वल्, अभिज्वलयति आपश्रौ १, २५, ९; भाश्रौ १, २६, ७; हिश्रौ १, ६, ५१.

अभि-ज्वलन- -ने बौश्रौ २०, २० : १.

अभि-ज्वलयत्- -यन् भाश्रौ ६, १०, ६; वैश्रौ ४, १० : ११.

अभि-ज्वालय बौश्रौ २०, २० : २; भाश्रौ ६, १०, ९; वैताश्रौ ७, ३.

अभि ✓ तप्, अभितपति बौश्रौ २, ९ : ३××; वाधृश्रौ; अभि ✓ तपति हिपि १० : १२ⁿ; अभ्य-तपत् वाधृश्रौ ४, २६ : २; वृदे ४, १५; अभितपेत् बौश्रौ १७, ३९ : २१; आग्निग; अभितपेत्ऽअभितपेत् आपश्रौ १, २५, १६.

अभिताप्सीत् पाठ ३, ६, ३; शुप्रा ४, ७२.

अभितापयति माश्रौ १, २, ३, २७; ६, १, १७.

अभि-तपन^o - नः शुअ १, २९०^p.

अभि-तपस्^q - -पाः ऋअ २, १०; ३७^r.

अभि-तप्त- -प्तः आश्रौ २, ७, १७, -साः सु ९, १.

अभितप्त-तर- -रम् आश्रौ १२, ८, १६.

अभि-तप्य काश्रौ २, ५, २६; आपश्रौ १, २५, १४; बौश्रौ १० : १३; भाश्रौ १, २६, १०; वैश्रौ ४, १० : १५; वृदे ६, १२.

अभि-तापन- -नम् माश्रौ १, ६, १, २४.

a) वैप १, परि. च द्र. ।

b) तत्रजातीयः अण् प्र. ।

c) तस्येदमीयः अण् प्र. (पा ४, ३, १२०) ।

d) अभि^o इति पाठः ? यानि. शोधः । e) नक्षत्राणां द्रस. । f) विप. (वृहस्पृष्ट-) । बस. । g) मलो. कस. । h) द्रस. । i) षस. । j) व्यप. (ऋषि-विशेष-) । व्यु. ? । k) तस्यापत्वीयः अण् प्र. । l) बहु.

< आभिजित्य- । m) सपा. अभि ✓ जिन्वताम् <> अभि ✓ पिन्वताम् <> अभि ✓ आगात् इति पाठे. ।

n) पाठे. वैप १, ३४३ f द्र. । o) व्यप. (सूर्य-) । गस. उप. कर्तरि ह्युः प्र. । p) सपा. षनः <> षाः इति पाठे. । q) व्यप. (सूर्यपुत्र-) । गस. उप. कर्तरि षसिः प्र. उलं. (पाठ ४, २२७) ।

अभि-ताप्य वाश्रौ १, ३, १, २६; २९.
अभि-तरम्^a आपश्रौ २, १७, ५.
अभि-तराम्^b आपश्रौ ६, ८, ४; वाधूश्रौ
 ४, ३०: १७; १८.
अभितष्टीय^b -यम् शाश्रौ १२, ६, १;
 १३, २४, १८; या १२, ४०.
अभि-तसः(:) आश्रौ ३, ६, ९××;
 शाश्रौ.
 अभितो(तस्-अ)नवसर्पण- -णाय
 वौश्रौ १०, ३३: ५.
 अभितो ✓ भू > त्तो-भाविन्^c - वि
 पा ६, २, १८२.
अभि ✓ तुद्, अभितृन्धि वौश्रौ १०,
 २४: १२; अभ्यतृणत् या १०,
 १३; अभि अतृणत् या १०,
 १३†.
 अभि ततर्द शाश्रौ १८, ५,
 १†.
 †अभि...तर्द: आश्रौ ५, ५, १९;
 शाश्रौ १४, ११, ८; २३, ३;
 †अभि(तर्द:) आश्रौ ८, ७, २२;
 ९, ८, ६; शाश्रौ ७, १७, ५; ११,
 १०, १०.
अभि ✓ तृप् > †अभि-तर्षय(त् >)
 न्ती- न्ती: आश्रिण् ३, १, ३:
 १८; भाग् २, १३: १२; हिग्
 २, १२, १०; कौस् ८८, २४.
 †अ-भित्ति- -त्यं आपश्रौ १६, ५, ३;
 ११; वौश्रौ १०, ७: ३; १३:
 ११; वाश्रौ २, १, १, ४४; वैश्रौ
 १८, १: ७४; हिश्रौ ११, १,
 ६६.

अभि ✓ त्रस् > अभि-त्रास- -स:
 आपध १, ८, २९^e.
 अभित्रासो(स-उ)पवासो(म-उ)-
 दकोपस्पर्शन^f - नानि हिध १,
 २, ११७^e.
अभि-दक्षिण^g -णम् काश्रौ ६, ३,
 २४; आपश्रौ १९, १५, ३; वाश्रौ
 १, १, ४, २४; द्राश्रौ ४, १, १०;
 ९, ४, ३; १५, ४, १६; लाश्रौ ५,
 १२, २०; काग् २५, २८; ५४, ४;
 माग् १, १०, १६; २२, १२; कौस्
 १, १९; ६, १५; ६९, २३.
अभि ✓ दह्, अभिदहेत् आपध १,
 २८, १५; हिध १, ७, ५०.
 अभिदह्येत् माश्रौ ३, ६, २२;
 अभिदह्येरन् आपश्रौ १४, २५,
 १; हिश्रौ १५, ६, २१.
 अभिदाह्येत् वाध २०, ४२.
अभि-दग्ध- -ग्धानि वौश्रौ २९,
 १: १; -ग्धे शाश्रौ १३, ६, ७;
 आपश्रौ १४, २५, ३; आपध १,
 १७, १०; हिध १, ५, ४२.
अभि ✓ दा(दाने), अभिददाति वैश्रौ
 २१, १८: ६.
 †अभि-ददि^h - -दिम् आपश्रौ १३,
 १४, ३; वौश्रौ ८, १४: ११;
 वैश्रौ १६, १७: २; हिश्रौ ९, ४,
 ११.
अभि ✓ दास्(हिंसायाम्), अभिदासते
 आप ४८, २४; †अभिदासति
 शाश्रौ ४, २१, २××; आपश्रौ ४,
 ११, ५ⁱ; ६, १८, ३^h; वौश्रौ;

†अभिदासत् आश्रौ ४, ६, ३;
 आपश्रौ ४, ७, २; १४, २९, ३;
 भाश्रौ; अभिदासात् हिश्रौ ६, ६,
 १७^h; कौस् ४९, ७.
 †अभि-दासत् -सतः आपश्रौ २०,
 २०, ७; हिग् १, १२, २; -सते
 वौश्रौ ३, १८: १; भाश्रौ ४,
 १२, ७.
अभि ✓ दिह्, अभिदिह्यत् आपश्रौ
 १५, १७, ८.
 अभिदिह्येत् भाश्रौ ११, १७, १०.
अभि ✓ दी(दीती), अभि(दिदीहि)
 साश्र १, ५७९†.
अभि ✓ दीधि(दीती)^h, †अभि
 (दीधय) आश्रौ ७, ४, ९; शाश्रौ
 १२, ५, ३; ऋश्र २, ३, ३८.
अभि ✓ दु(उपतापे) > अभि-दू-
 (न >) नाⁱ -ना: वौश्रौ १८,
 १२: १३.
अभि ✓ दुह्, अभिदोह्यि वौश्रौ १४,
 २३: १९; हिश्रौ २४, १, १०;
 अभिदुहन्ति आपश्रौ १, १३, १२;
 भाश्रौ १, १, ४; †अभिदुह्यात्
 वौश्रौ १४, २३: १८; हिश्रौ १५,
 २, ७.
 अभिदोहयति आपश्रौ १५, २,
 २; भाश्रौ ११, २, १०.
अभि-दुग्ध- -ग्धम् वैश्रौ ३, ८: ५;
 हिश्रौ १, ३, ५१.
अभि-दुह्य भाश्रौ ९, ७, ७; ८; वैश्रौ
 २०, ९: १३.
अभि-दोहन- -नस् आपश्रौ १५, २,

a) वा. क्रिवि. । b) नाप. (सूक्त-विशेष-) । अभि तृष्ठा (ऋ ३, ३८, १) + मत्वर्थे छ > ईयः प्र. (पा ५, २, ५९) । c) विप. । उस. उप. आवश्यके णिनिः प्र. (तु. पाशे. प्रभृ.; वैतु. पाका. प्रभृ. मत्वर्थे प्र. इति) । d) सपा. तैत्रा २, ७, १३, २ वि...विभेद इति पाभे. । e) सप्र. ष उप < > षोप इति पाभे. । f) द्वस. । g) अस. वा. क्रिवि. । h) वैप १, परि. च द्र. । i) पाभे. वैप २, ३३. अभिदासति तैत्रा २, ४, १, २ टि. द्र. । j) पाभे. वैप १ परि. अभिदासति काठ ७, २^h टि. द्र. । k) विप. (ओषधि-) । गस. उप. कर्मणि छ > नः प्र. दीर्घश्च (पावा ८, २, ४४) ।

३; भाश्रौ ११, २, ११; हिश्रौ २४, १, ११.
अभि-दोह, ह्य^१ - ह्यम् आपश्रौ ९, ५, ८; ९; ६, २; ४; ५; काश्रौ सं ३१ : ९; वैश्रौ २०, १० : ८; १०; - ह्य भाश्रौ ९, ८, ५.
अभि-दूना- अभि/दु द्र.
अभि/दृह > अभि-दृढ- -डम् वाधूश्रौ ४, २८ : ४.
अभि/दृग > अभि-दृ(य) > इया-इयाः बौश्रौ २६, २ : ३.
अभि-दो(षा >) ष^२ - षम् भाश्रौ ११, २२, ९.
†अभि-द्यु^३ - द्यवः आश्रौ १, २, ७; ७, ८, १; बौश्रौ १, १५ : २; ३, २७ : १९; १०, ११ : १; माश्रौ १, ५, १, २४; ६, १, ३, ३; वाश्रौ १, ४, १, १०; हिश्रौ ३, २, ५३; २१, १, ९.
अभि/द्युत्, अभिद्योतयति बौश्रौ ३, ५ : ४; वाधूश्रौ ३, २४ : ७; २५ : ८.
अभि-द्योतन- -नम् बौश्रौ २, १८ : २८; ३, ४ : १६; -नेन बौश्रौ ३, ५ : ४; बौगृ १, ३, ११; बौपि २, ९, ४.
अभि-द्योत्य बौश्रौ ३, ५ : ६; वैश्रौ २, ३ : २; ३; बौगृ १, ३, ११^३; बौपि २, ९, ४^३.
अभि/दृ, अभिद्रवति बौश्रौ ११, ३ : ३; जैश्रौ १ : २१; अभिद्रवन्ति अप ६७, ३, ३; या ८, १^३; अभि-द्रवेत् जैश्रौ १ : १९.
अभि-द्रवण- -णम् आमिगृ ३, ८, २ : २७.
अभिद्रवणीय- -यम् या ४, ९.

अभि-दुल्य आपश्रौ १, २०, १२; १२, २१, ५; जैश्रौ १ : २०.
अभि/दुह, †अभिदुदोह आपश्रौ ७, २१, ६; बौश्रौ.
†अभि-दुग्ध- -ग्धः पागृ ३, १२, ९^३; आमिगृ २, ७, ५ : ५; ६; वैगृ ६, ९; ५^३; बौध २, १, ३३^३; ४, २, १०^३; गौध २५, ४^३; भाशि १७.
अभि-दुह्य बौश्रौ १३, ९ : ७; माश्रौ ५, १, ५, ८०.
अभि-दोह- -हम् तैप्रा १२, ७^३.
अभि-धोक्ष्यत्- -क्ष्यन् माश्रौ ५, १, ५, २८.
अभि/धम् > †अभि-धमत्- -धमन्ता, -मन्तौ या ६, २६^३.
अभि/धा^४, †अभिधेतन^५ अप ४८, ११५; निघ ४, ३; या ६, २७^३.
अभिदधाति आपश्रौ १, १२, ९; १५, ९, ५ XXX; बौश्रौ; **अभि-धत्तः** बौश्रौ १५, ५ : ८; †अभि-**(दधामि)** कौस् ७९, ७; अअ ७, ३७; **अभि...** धत्ताम् अशां १५, ५^३; †अभिधेहि वाश्रौ १, ६, ५, १०; गोगृ ४, १०, १९; जैगृ १, ४ : ४; कौस् ६२, २१; **अभि-दध्यात्** आपश्रौ १९, १९, ३; बौश्रौ २०, २७ : १६; भाश्रौ ७, १३, ८; हिश्रौ २२, २, २६; आमिगृ ३, ८, १ : २७; **अभि-दध्युः** शंघ २१८.
अभिधास्यते अप २४, १, १०; **अभिधास्ये** विध ६९, २४; **अभि (अधित)** शुअ २, ४६१^३; †अभि...**अहित** वैताश्रौ ३६,

१९; †अभि(अहित) अअ ३, ११; अयं ३ : २६; **अभ्यधाताम्** या ३, १४; †अभ्यधीताम् या ३, १४^३; †अभि...**अधाम्** आपमं १, १५, ६; कौस् ३६, २०; अअ ३, १८.
अभिधीयते शागृ १, २, ५; बौगृ; **अभिधीयसे** विध १०, १०.
अभिधापयित आगृ ३, ८, १८.
अभिधित्सति आपमं १, १७, ८^३.
†अभि-धा^६ - धाः काश्रौ २०, १, २६; आपश्रौ २०, ३, ५; बौश्रौ १५, ५ : ३; वाश्रौ ३, ४, १, १४; हिश्रौ १४, १, २८.
२अभि-धा^७ - धानाम् वृदे १, १२.
अभि-धान^८ - नम् आश्रौ ४, १, ९; वृदे; या १, २०; पावा १, २, ६४^३; २, २, २९^३; मीस्; -नयोः मीस् ४, ४, ३४; -नस्य वृदे ३, ७७; या ७, १३; मीस् ८, ३, १०; १०, ४, ३३; -नात् काश्रौ १, ३, ५; पावा १, २, ६४; ४, १, ४८; मीस् ६, ८, ३७; ७, ३, ३३; -नानाम् बौश्रौ १५, २० : ७; वाधूश्रौ ३, ७८ : ३; -नानि या ७, ५; ६; -ने बौश्रौ २०, २७ : १५; पावा ४, ३, १५३; मीस् १, २, ४६; -नेन ३, ७, ८; -नेषु मीस् ७, १, ९; -नैः या ७, १३.
†अभिधानी^९ - नी आपश्रौ १, १२, ८; १८, १०, २१; वाधूश्रौ; -नीम् आपश्रौ १, ११, ५XXX; भाश्रौ; -न्या वैश्रौ १३, ११ : ८.
अभिधानी-भाजन^{१०} - नम् वाधूश्रौ ३, ६९ : ३६.

a) वि. । गस. उप. ष्यत् प्र. । b) अस. वा. क्वि. । c) वैप १, परि. च द्र. । d) वैतु. C. पूर्वेषां समस्तमिनीव । e) उपसृष्टस्य धा. वचन-वन्धनादिषु वृत्तिः । f) तु. वैप १, ३४६ a । g) पाभे. वैप १ परि. अभिद्रित्सते ऋ १०, ८५, ३० टि. द्र. । h) नाप. (वृत्ति-विशेष-) । भावे अङ् प्र. । i) गस. उप. ऋणाद्यर्थे ऋट् प्र. । j) नाप. । षस. उप. भाप. ।

अभिधान-त्व- -त्वात् मीसू ७, ४, ७.
 अभिधान-प्रोक्षण-वपोखेदना-
 (न-अ)भिघारण- -णेषु वाश्रौ १, ६, ४, ६.
 अभिधान-लक्षण-त्व- -त्वात् पावा ३, ३, १९.
 अभिधान-वत् मीसू ७, १, ८; ४, ७; ८, १, २.
 अभिधान-वाचिन्- -ची मीसू २, १, २९.
 अभिधान-शब्द- -ब्देन मीसू ७, २, १.
 अभिधान-संयोग- -गात् मीसू ४, २, २१: १०, ६, ५२.
 अभिधान-संस्कार-द्रव्य-
 -व्यम् मीसू १०, १, २.
 अभिधान-स्तुति- -तयः ऋअ १, २, १३.
 अभिधाना(न-अ)र्थ- -र्थम् पावा २, १, ५१.
 अभिधानो(न-उ)पदेश- -शात् मीसू ७, ३, ३५.
 अभि-धाय वीश्रौ ११, ३: ३२, ३३; माश्रौ ६, ८, १५; वाश्रौ १, ६, ६, १५; मीसू १०, ८, ३१.
 अभि-धायक- -का: वृदे ५, ९४.
 अभि-धीयमान, ना- -नायाम् शाश्रौ ५, १०, ३; -ने वैश्रौ २३: ८.
 अभि-धेय- -य: वृदे २, १०२; -यस्य पावा ४, २, ५२; ६६; -या: माशि ११, ४; -येन अत्र ८, १.
 अभिधेय- -व्यक्ति-वचन-भाव- -वात् पावा १, २, ५१.

अभि-हित, ता- -त: वीश्रौ १२, २: १३; अप्राय ३, २; कौशि ३२; -ता विध ९, १२; -तानि शंघ १०६; -ते पावा १, ४, ५१; २, ३, १३; ३, १, ६७.
 अभिहित-गुण-संपन्न- -न्न: विध ८, ९.
 अभिहित-तम, मा- -मम् माश्रौ १, २, ६, ८; -माम् माश्रौ १, २, ६, १६.
 अभिहित-त्व- -त्वात् पावा २, २, २४.
 अभिहित-दण्ड-प्रयोग- -ग: विध ५, ९०.
 अभिहित-लक्ष (ए >) णा^०- -णायाम् पावा २, ३, ४६.
 अभिहिता(त-अ)नभिहित- -ते पावा २, ३, ४६.
 अभिहिता(त-अ)र्थ-त्व- -त्वात् पावा २, २, २५.
 अभि/घाव् (गती), अभिघावति वाध १, १५; अभिघावसि सु २१, ३; अभिघावत या ६, २७; अभ्यघावत् वृदे ६, १२; अभ्यघावन् वृदे ८, १३७; अभिघावेत् अप्राय १, ३; वाध २०, ४१.
 अभिघावयन्ति वीश्रौ १५, ५: १४; २४: १२; अभिघावयातै वीश्रौ १५, ६: १०.
 अभि-घावत्- -वन् वाश्रौ ३, ३, २, ४२; पाग २, ५, ३०.
 अभि-घान्यमान- -ने वीश्रौ १५, ६: १०.
 अभि/धू, अभिधूनोति वैश्रौ १३, १०: ७.

अभि-धून्वत्- -न्वन्त: आपश्रौ १४, २२, १; कौग ५, २, ९; हिषि २: १४; १४: ११; गौपि १, २, ४०.
 अभिधून्वती- -त्य: आपश्रौ २०, १७, १३.
 अभि/धै, अभि...ध्यायति वाधूश्रौ ४, ३०: १७^१; अभ्यध्यायत् वाधूश्रौ ४, ३०: १६; ऋअ २, १, ५१; अभ्यध्यायन् निसू ५, ५: ३५; अभिध्यायेत् आपश्रौ ४, १३, ६; वीश्रौ २०, २४: ३४; माश्रौ ४, १९, २; वैश्रौ ७, ८: २; हिश्रौ ६, ३, २२; अप २७, १, ५२.
 अभिदधौ वीश्रौ १८, ४४: २.
 अभि-ध्यात- > ^०त-तम- -मानि लाश्रौ ८, ४, १३.
 अभि-ध्याय शाश्रौ १६, २९, ७; शुअ १, १.
 ?अभिध्रुवम्^० निसू १, ७: ३२.
 अभि-ध्रोक्ष्यत्- अभि/द्रुह् द्र.
 अभि/ध्वंस्, अभिध्वंसयति माश्रौ ११, १५, २३.
 अभि-नद्ध- अभि/नह् द्र.
 अभि/नन्द, अभिनन्दन्ति वाध ११, ४१; अभिनन्देत् वैश्रौ १२, ३: ६.
 अभिनन्दयेत् विध ६३, ३९.
 अभि-नन्द^१- -न्दम् निसू ३, १३: २३.
 अभिनन्द-ब्राह्मण^१- -णम् निसू ९, १३: ३८^४.
 अभि-नन्दत्- -न्दन् अप १, २६, ३.
 अभि/नम्, अभिनमन्त या ७, १७.
 अभिनंस्यति वाश्रौ ३, २, ६, २२;
 अभिनंस्यामि वाश्रौ ३, २, ६, २२^१.

a) द्रस. । b) षस. पूष. द्रस. । c) वस. । d) षैति इति पाठः? यनि. शोषः (तु. संस्कृतुः टि.) ।
 e) पाठः? अभिद्रुत- > -तम् इति शोषः (तु. संस्कृतुः टि. अभिद्रुतम्? इति) । f) नाप. (ब्राह्मणग्रन्थ-विशेष-)
 षस. उप. कर्तरि कृत् । g) कस. । h) ^०न्द्रावा^० इति पाठः? यनि. शोषः ।

अभिनमयेत् वौश्रौ २६, ३२ : १२.
 अ(भि >)भी-नाम्^१ - नम् वौश्रौ २०, १८ : १७; २३, १९ : १५.
 अभि-नव^२ - वम् अप्राय २, ५^३; अप ३७, ५, ८.
 †अभि ✓ नश् (व्याप्तौ), अभि(नश्त्) ऋप्रा ५, ३; अभ्यानट् या १२, १८^४.
 अभि ✓ नश् (अदर्शने), अभिनाशयाम अप १^३, १, ६.
 अभि ✓ नह् > अभि-नह- > ङ्हा- (ङ्-अ)क्ष^५ - क्षः निस् ४, २ : २७.
 अभि-नह्य माश्रौ २, २, १३.
 अभि-नि ✓ कृप् > ँनि-कृष्ट- > ँष्ट- गीति^६ - ति निस् ७, १२ : १८.
 अभि-नि ✓ गद्, अभिनिगदति कौस् ३९, २७; ४४, ६.
 अभिनि-गदन- -नात् कौस् ७१, १३.
 अभिनि-गद्य कौस् ६३, २०; २२; २८; ६६, २०; २७.
 अभि-नि ✓ गृह्, अभिनिगृह्णाति माश्रौ १०, १५, ७.
 अभिनि-गृह्य हिश्रौ २२, २, ५४.
 अभि-नि ✓ दृग्, अभिनिदर्शयति वौश्रौ ३, ४, २२.
 अभि-निघन^७ - नम् शांश्रौ १३, ५, १४; काश्रौ २५, १४, १४; लुस् १, ४ : ४; २, १० : २०; ११ : १८.
 अभि-नि ✓ धा, अभिनिद्घाति काश्रौ

२, ८, ११; माश्रौ; †अभिनि- द्घामि आपश्रौ ५, १२, २; १३, ८x x; माश्रौ; आपमं २, २१, ३१^०; अभिनिद्घ्यात् आश्रौ १, १२, ३४; आपश्रौ ९, २, ९; माश्रौ ९, ४, १; माश्रौ.
 अभिनि-द्घान- -नः माश्रौ ४, ३, ५.
 अभिनि-घान^८ - -नः तैप्रा १४, ९; ऋत २, ३, १; शौच १, ४३; ४४; -नम् काश्रौ ५, १, २५; आपश्रौ १, २३, ४; ऋप्रा ६, १७; -नात् ऋप्रा ६, ३९; -नानाम् माशि १२, १; -ने काश्रौ २५, ३, १३.
 अभिनिघान-भाव- -वम् ऋप्रा ६, ३१.
 अभिनिघान-लोप- -पः ऋप्रा ६, ४३.
 अभिनि-धाय काश्रौ ६, ६, ८; ७, २, ९; आपश्रौ १, २३, ३x x; काठश्रौ.
 अभिनि-धीयमान- -नम् भागृ २, १९ : ४.
 अभिनि-हित- -तः ऋप्रा २-३, ३४^६; शुप्रा १, ११४; १२५; शौच ३, ५५; शांशि २३३; २३५; माशि ७, २; ८, २; ५; याशि १, ७६; -नम् शांश्रौ १२, १३, ५; निस् १, ७ : ३२; शांश्रु ६, ५, १; माशि ७, ३; याशि १, ७९; -तात् ऋप्रा १३, २६.
 अभिनिहित-त्व- -त्वम् भास् १, १९.
 अभिनिहित-प्राश्छिष्ट-जात्य-

क्षैप्र^९ - प्राणाम् शौच ३, ६५.
 अभि-नि ✓ नी > अभिनि-नीय वौश्रौ ६, २ : ७.
 अभि-नि ✓ पत् (गतौ), अभिनिपतेत् आपृ २३, ८^३; भागृ २, ३० : १३^१.
 अभि-नि ✓ घृच्, अभिनिघ्नोचेत् वौश्रौ १४, २४ : २; ४; १०; १२, वैश्रौ २०, १२ : ३; अभि- निघ्नोचेत् आपश्रौ ५, २९, १३; ९, ६, १२; १४x x; वौश्रौ.
 अभिनि-घ्नुक, क्ता- -क्तः आपश्रौ १०, १५, ६; वौश्रौ २८, ९ : २७; वैश्रौ १२, ११ : ९; २०, २६ : ८; २१, २ : ११; -क्ता वौश्रौ १३, १ : ७^१; -क्तात् वौश्रौ ६, ६ : ५; -क्ते वौश्रौ २७, ५ : ७.
 अभिनिघ्नुक्ता (क्त-अ)भ्युदित- कुनखि-श्यावदा(द-अ)प्रदिधिषु- दिधिषूपति-पर्याहित-परीष्ट-परि- वित्त-परिविन्न [परिवेत्तृ-परिवि- त्ति^{१०}] परिविदिदान^{११} - -नेषु आपृ २, १२, २२; हिध २, ४, ५९.
 अभिनिघ्नुक्ता (क्त-अ)भ्युदित- पर्याहित-परीष्ट-परिवित्त-परि- विन्न-परिविदिदान^१ - -नः आपश्रौ ९, १२, ११.
 अभि-नि ✓ म्लुच्, अभिनिम्लोचेत् अप्राय ४, ४; ५, १.
 अभि-निर् ✓ अस् (क्षेपणे), अभि निरस्यति कौस् २९, ६; ३२, २४.

a) गस. उप. घञ् प्र. । वा. क्वि. । b) विप. (बर्हिस्-) । प्रास. । c) विप. । बस. उप. =अक्षि- । d) नाप. (साम-विशेष-) । बस. । e) सपा. अभिनिद्घामि <> अभितिष्टामि <> अभ्युपविशामि इति पाभे. । f) भाप. (काश्रौ. आपश्रौ.), नाप. (तदाख्यसंधि-विशेष-) । गस. उप. कर्माद्यर्थे ल्युट् प्र. । g) नाप. (स्वरितभेद-विशेष-) । h) द्रस. । i) सपा. अभिनिपतेत् <> अभिपतेत् इति पाभे. । j) नाप. (इष्टि-विशेष-) । k) हिध. पाठः । l) द्रस. > मलौ. कस. ।

अभि-निर्/ऊह (प्रापणे), अभि-
निरूहति बौध् १५, १९ : ६.

अभि-निर्/जि > अभिनिर्-जित्य
माश्रौ ५, १, ५, ६७.

अभि-निर्/दिश, अभिनिर्दिशेत्
बौध् २२, ९ : १३; दाश्रौ १३,
३, ४; अप ६१, १, ४; शंघ १३८;
मांसू ११, ७, ५.

अभिनिर्-दिश्य वृदे ७, १०१.

अभि-निर्/वप, अभिनिर्वपति बौध् १
८, २१ : २.

अभिनिर्-उप्य मागृ १, ११, २.

अभि-निर्/वृत्, अभिनिर्वर्तयेत्
मागृ २, ९, १९.

अभिनिर्-वृत्त- -त्तः आशि ८, २३.

अभिनिर्-वृत्ति- -त्तेः पावा ६, १,
८३.

अभि-निर्/ह > अभिनिर्-हृत-
-तानाम् आपध १, ९, १६; हिध
१, ३, १६.

अभिनिर्वर्तना^a वाधूश्रौ ४, ८२ : २.

अभि-नि/वप, अभिनिवपति बौध् १
२४, ३ : ४.

अभि-नि/विश^b > अभिनि-विष्ट-
°ष्ट-क^c - > °ष्टक-वर्जम् मागृ
२, १३, ५.

अभि-नि/वील(ळ) > अभिनि-
वीलह(ळह)^d - लहम् शाश्रौ १७,
१०, १५.

अभि-नि/वृत्, अभिनिवर्तते वाधूश्रौ
४, ९८ : २२; आमिगृ ३, ४, ४ :
८; अभिनिवर्तन्ते बौध् १५,

२० : ९; २०, १० : ३४; अभि-
...निवर्तताम् या १२, ३९१;
†अभि...निवर्तध्वम् आपश्रौ ४,
१०, ४; भाश्रौ ४, १५, ३; हिश्रौ
६, ३, ०; अभिनिवर्तते बौध् १
२४, ७ : ५; ७; अभिनिवर्तैरन्
बौध् २०, १० : ३५.

अभिनि-वर्तम् वाधूश्रौ ४, ९८ : २; २१

अभिनि-वृत्त्य धुम् २, २ : ९.

अभि-नि/श्रि, अभिनिश्रयते बौध् ११, १२
१२ : १०; १३ : २४; अभिनिश्रय-
ध्वम् बौध् ११, १० : २१; अभि-
निश्रयेत् आपध २, २२, ४; २३, २.

अभि-नि/षद्, अभिनिषीदतु मागृ
१, १८ : ९; जैगृ १, २२ : ८;
अभिनिषीदेत् आपश्रौ ९, ११,
२४; १४, ३१, १; १५, १८, ८;
१६, १२, ११.

अभि-नि(स् >)प्/कम्, अभि-
निष्कामति पा ४, ३, ८६.

अभिनिष्-कस्य अप ८, १, २.

अभिनिष्-कामत्- -मतः वैगृ ५,
१ : २४.

अभि-नि(स् >)√ष्ट (<स्त)न्(शब्दे)^e
अभिनि-ष्टान^f - -नः शौच १, ४२.
अभिनिष्टाना(न-अ)न्त^g - -न्तम्
आगृ १, १५, ४; कौगृ १, १६,
९; वैगृ ३, १९ : ५^h.

अभि-नि/ष्टी (<ष्ठि)व्, अभिनि-
ष्टीवति कौस् ३१, १७; ३६, ३०.

अभि-नि:/सृप्, अभिनिःसर्पन्ति
आश्रौ ५, ११, १.

अभि-निः/स्तन् पा ८, ३, ८६.

अभि-निः/स्रु, †अभिनिःस्रवन्तु
मागृ २, ९, ४.

अभि-नि/हन्, अभिनिघ्नते आमिगृ
१, ३, २ : ३ⁱ; अभिनिहन्त्यान्
आपश्रौ ९, २०, १०.

अभिनि-हत्- -तः तैप्रा २०, ४;
कौशि ८; -ते तैप्रा २०, १०.

अभिनिहिता(त-आख्या-) ख्य-
-ख्यः कौशि १४.

अभि/नी, अभि...नय आश्रौ २,
१०, १४.

अभि...नेवः कौस् ४, २.

अभि-नीय बौध् २८, ४ : १७; १९;
२१; २४; २६.

अभि-नी(नि/इ), अभि...न्येतु
ऋप्रा ८, ४२१.

अ-भिन्दत्- -न्दन् वैश्रौ ५, ८ : ९;
हिश्रौ १, ८, २३.

अ-भिन्न, न्ना- -†न्नः आश्रौ ३, १४,
१०; आपश्रौ ९, १३, ९; बौध् ३,
१५ : १४; भाश्रौ ९, १६, ३;
माश्रौ ३, १, २४; वैश्रौ २०, २८ :
३; हिश्रौ १५, ४, ८; बौगृ ४, १,
५; -न्नाः आपश्रौ १६, १३, ८;
-न्ने काश्रौ १८, २, ५; -न्नेन
काश्रौ २६, ७, ४८.

अभिन्न-काल^k - -ले शाश्रौ १, १६, ५.
†अभिन्ना(न्न-अण्डे) > णडा^l - -णडा
मागृ २, १८, २.

अभिन्ना(न्न-अ)न्त^m - -न्तम् हिश्रौ
१३, ३, २१.

a) पाठः! अभि/नी (भावे) > अभि-नि- (=अभि-नय-) > णि-व(त.<)ती-> -तीम् (पृथिवीम्)

इति, सा (श्रुष्टिः) इति द्वि-पदः शोधः (वैतु. संस्कर्तुः टि. अभिनिवर्तान् सा इति ?) । b) पा १, ४, ४७ परामृष्टः
द्र. । c) विप. > नाप. (गणाञ्ज-) । कान्तात् स्वार्थे कः प्र. । d) तु. ऋप्रा १, ५२ । e) षत्वं द्र. (पा ८, ३, ८६) ।
f) नाप. (विसर्जनीय-) । गस. । g) विप. । बस. । h) णिष्ठान्तम् इति पाठः! यनि. शोधः (वैतु.
भाष्यकृद् अन्यथा-दशुकः [तु. C.] । i) सप्र. बौगृप १, १३, १० अभिनिघ्नन्ति इति पाठे. । j) नाप. (स्वरितभेद-
विशेष-) । k) विप. (अर्थ- [प्रयोजन-]) । बस. ।

अभि-न्य(नि/अ)स् (क्षेपणे), अभि-
न्यस्यति काश्रौ २, ६, १५: कौस्
१८, १०; अभिन्यस्यन्त् माश्रौ २,
१, ४, १४.

अभि-न्यु(नि/उ)ब्ज्, अभिन्युब्जति
कौस् ४१, ४; ४८, ४०.
अभिन्युब्जयेत् अप १३, ३, ९.

अभि/पत्(गतौ), ऋभ्यपत्त्^० भाग्य
२, ३० : १४: १७, हिग्य १, १६,
६: ७; अभिपत्त् हिग्य १, १६, ७^०.
अभिपेततु: वृद्धे ४, ६७: ७,
८८, अभ्यपत्त्^० आप्तं २, २२,
११: १३ : अभ्यपत्ताम वाधृश्री
४, ३७: ११.

अभि-पात्य वौश्रौ ६, २ : २३: २१,
८ : २५.

अभि/पद्, अभिपद्यते हिश्रौ १, २,
३०; अभिपद्यते वौश्रौ २०, २५:
२६: भाग्य २, २७: ९.

अभिपत्स्यते वाधृश्री ३, ७५: ११.

अभि-पद्य भाग्य १, ७: १०: ९: १४:

वौध २, ६, ३४: ऋप्रा ७, ९१.

अभि-पद्यमान- ने काश्रौ ५, १०, ९

अभि-पाद्य वौपि १, ५: ३.

?अभि-पद्- -दे शेष २३९.

अभि-परि/कृप् > अभिपरि-कर्षन्-
-र्षन् माश्रौ ५, २, ३, १०: २२.

अभि-परि/गृह्, अभिपरिगृह्णति
माश्रौ २, ६, २, ८.

अभिपरि-गृह्णत- -ह्णत माश्रौ १, ३,
२, १२.

अभिपरि-गृह्ण माश्रौ २, १, ३, ३१:
३९: भाग्य १, १०, ६.

?अभि-परिमित^० -तम् वाधृश्री ४,
९०: २७.

अभि-परि/लिख्, अभिपरिलिखेत्
वौश्रौ २३, १४: १०.

अभि-परि/स्त्, अभिपरिस्त्गाति
वाग्य १, १८.

अभि-परि/ह्, अभिपरिहरति आश्रौ
८, ५, १२; वौश्रौ ८, ९: ७: १४,
१९: २; हिश्रौ १, १, ५४: ७, ८.

६२: अभिपरिहरन्त् आश्रौ १६,
२१, २; २४, २, १४: माश्रौ १,
१, १५^३; वौध १, ७, ७: अभि-

परिहरैयु: माश्रौ २, २, ५, ३१.

ऋअभिपरिहारिषम वौश्रौ ६, ३३:
२: ७, ७: १६: २५, २०: १०.

अभिपरिहारथेरन् आश्रौ ४,
१२, ८.

अभिपरि-हृण- -णन् अप ४४,
४, ५.

अभिपरि-हृण- -णन् भाग्य १, २,
१९.

अभिपरि-हरमाण- -ण: वौश्रौ २५,
१२: १६.

अभिपरि-हृण्य वौश्रौ ७, ७: १७.

अभि-परी(रि/उ) > अभिपरी(रि-
उ)न- -ता: निम् ६, ९: १८:

-तौ निम् ६, ९: १३.

अभिपरी(रि-उ)य निम् २, १३: ३९.
अभिपर्यै(रि-अ)य- -यत् निम् ६,
९: १८.

अभि-पर्यैमि- -मि वौश्रौ ५, ५: १८:
२५ १: १९.

अभिपर्यैति/कृ > अभि-कृत- -कृ
वौश्रौ २३, १४: १५; -तानि
वौश्रौ ५, ७: ९: १०, ११: १७;

-त आश्रौ ७, १६, २.
अभिपर्यैति-कृत्वा वौश्रौ १७,

५६: ११: ५९: १४; ६२: ३;
२६, २५: १३.

अभि-पर्या(रि-आ) √ वृत्, अभि-
पर्यावर्तते आश्रौ १, २, ९: ९,
११: १८, ५, १९: वौश्रौ; अभि-

पर्यावर्ते वौश्रौ २८, ९: २०^११^०;

अभिपर्यावर्तते वाश्रौ ३, १, २,
१८: वौध १, ७, १३: अभिपर्या-

वर्तेरन् वौश्रौ २७, २: १; वौध
१, ७, १२.

अभिपर्या-वर्तमान- -न: आश्रौ ७, २,
१४; काश्रौ ३, २, १३: भाग्य ४,
३, १२: भाग्य ३, ५, १९.

अभिपर्या-वृत्त्य आश्रौ २, ७, २;
वौश्रौ ३, १०: २४ ८, १७:

११: २०, ७: ९: आश्रौ १, ९,
५: ४, २१, ५: वाधृश्री ४, ४५:

१२: ५३^०: ५; आश्रौ ३, ५, ५:
४: वौपि १, ४: ४: भाग्य २,
१३: ८.

अभि-पर्यु(रि/उ) क्ष् > अभिपर्यु-
(रि-उ)क्षन्- -क्षन् भाग्य १, ३, ५.

ऋअभि-पर्यै(रि-आ/उ), अभिपर्यैहि
भाग्य १, २२, ७; कैग्य १, १२: ४७.

अभि-पल्ल(पग) > ला/उ, अभिपला-
यत वाधृश्री ३, १९: ४, ४,
१०९: ३: अभि-...पलायत
वाधृश्री ३, १९: ६: ९.

अभि/पञ्, अभिपञ्चामि नि २,
१: १७: अभ्यपञ्चयत् वाधृश्री
३, ४३: २.

अभि/पा(रिनि) > अभि-पाप भाग्य
४, १०, १७.

अभि/पा(रक्षणे), अभिपातु वौश्रौ
१०, ३१: ५; ३९: १४; ४६:

a) पाभे. वेप १ पांर. अभ्युपसत्, अभ्युपसत् औ ६, १२४, १, २ टि. द्र. । b) पाभे. पृ २९६ । द्र. ।

c) पाठः ? अ-विपरि^० इति शोधः । अ-परि^० इति संस्कर्तुरभिमतम् । d) अस. वा. क्रांति. । e) °वर्तते इति पाठः ? यनि. शोधः (तु. सप्र. शौ ७, १०५, १ पर्यावर्ते इति पाभे.) ।

३८; अप १, ३८, १; अशां ८, १;
 †अभिपाहि वैश्रौ १८, २१;
 २६; हिश्रौ ११, ८, ३; अभि...
 पाहि वौश्रौ ७, ७ : ७†.
अभि-पित्व(त-व)^a- न्वम् या ३,
 १५†.
अभि✓पिन्व, अभि...पिन्वताम्
 वाश्रौ १, १, ३, १२†^b.
अभि✓पिप्, अभिपिन्धि आपश्रौ
 १९, २५, २१; हिश्रौ २२, ६, ४.
अभि✓पा, अभिपापयतः वौश्रौ ९,
 १० : २५.
अभि✓पाङ्, अभिपाङ्गयति आशि
 ५, १; अभिपाङ्गयेत् याशि २,
 ९७.
 अभि पाङ्गयन्- -यतः आपध १, ५,
 २२; हिश्रौ १, २, २३.
 अभि-पाङ्ग्य द्राश्रौ ३, ३, ११.
अभि-पुरुष^c- -पम् वाधूश्रौ ४, २६^d :
 १४; ११५ : १३.
अभि✓पू, अभि...पवने वाधूश्रौ ४,
 ९४^e : ८.
अभि✓पूज्, अभिपूजयति वैश्रौ १,
 ६ : १; अभ्यपूजयत् वृदे ४, ७७;
 अभिपूजयेत् वाध ३, ६९.
अभि-पूजित- -तः या ३, २१;
 -तम् अप ५८^f, १, २; गौध ९,
 ५९; -तेषु विध २१, ४.
अभिपूजित-लाभ- -भात् विध
 ९६, ९.
अभिपूजिता(त-अ)र्थ- -र्थे या
 १, ३.
अभि-पूज्य वैश्रौ ४, ३ : ३; विध
 ६८, ४२.
अभि-पूर्व^g- -र्वम् आपश्रौ १५, ६, ४:

भाश्रौ ११, ६, ६; हिश्रौ १८, १,
 २०; २, ८.
अभि✓पृ, पृ (पूरणे), †अभि...
 पृणाहि^h आपश्रौ ९, ८, ८; वौश्रौ
 १३, ४३ : १५; हिश्रौ २०, ७,
 ३; वीश्रौ १, ६, १८; हिश्रौ २,
 १७, ३; †अभि(पृणाहि) वीश्रौ
 ३, ८, २; अभि...पृणीहि पाश्रु
 ३, १, ३†ⁱ.
अभिपूरयति काश्रौ ७, ३, १५;
 आपश्रौ ८, २, १०××; वौश्रौ.
अभि-पूरयिषेत् वौश्रौ २४, ७ : ३.
अभि-पूरण- -णम् काश्रौ २४, ३,
 २९.
अभि-पूरयितुम् आपश्रौ २१, ४, १५.
अभि-पूरयित्वा वैश्रौ ८, ५ : ७.
अभि-पूर्ये आपश्रौ २, ३, १३; १०,
 २१, १२××; वौश्रौ.
अभि-पूर्यमा(मा>)णा- -णाम्
 वौश्रौ ३, १६ : १९.
अभिपूर्यमाण-पञ^j- -ञः
 वाधूश्रौ ४, २८ : १.
अभि-प्र✓कम्प>अभिप्र-कम्पयत्-
 -यन् या १२, २७.
अभि-प्र✓कम्, अभिप्रकामति वैताश्रौ
 ७, ८.
अभिप्रकमयति आपश्रु ४, १६.
अभिप्र-कम्य कौश्रु १५, १.
अभि-प्र✓गम्, अभिप्रजग्मुः वौश्रौ
 १८, २२ : ११.
अभि-प्र✓गाह्>अभिप्र-गाह्य शांश्रौ
 १६, १८, १९; हिश्रौ १०, ५, २६.
अभिप्रग्न गौपि १, १, ८†.
अभि-प्र✓छद्, अभिप्रछादयेत् अप
 ३७, ५, ८.

अभि-प्र✓जन्, अभि(प्रजायन्ते)
 ऋअ २, ५, १९†.
अभि-प्र✓तप्>अभिप्र-तप्य हिश्रौ
 १, ६, ५६.
अभिप्रतारिन्^k- -री निन् ४, ११ :
 २१.
अभिप्रतारिण^l- -णः शांश्रौ १५,
 १६, १०.
अभि-प्रति✓गृ, गृ(गृह्णन्), अभिप्रति-
 गृणाति आपश्रौ १२, २७, १६;
 वैश्रौ १५, ३६ : ३; हिश्रौ ८, ८,
 २७; अभि...प्रतिगृणाति वौश्रौ
 १४, १० : २२†; अभिप्रतिगृ-
 णीयात् आपश्रौ १४, ३२, ६;
 वौश्रौ १४, १० : २०.
अभि-प्रति✓पद्, अभिप्रतिपद्यते
 वीध २, ५, ३.
अभि-प्रति✓ह>प्रति-ह(त>)
 ता^m- -ताभिः हिश्रौ १५, ५, ३४.
अभि✓प्रथ्, अभिप्रथयति आपश्रौ १,
 १५, ३; वौश्रौ १, ९ : १५; भाश्रौ
 १, २६, १; हिश्रौ १, ६, ४७.
अभि-प्रथन- -नम् मीस् ११, ४, ४२;
 -ने वैश्रौ २०, २८ : १२.
अभि-प्रदक्षिणⁿ- -णम् माश्रौ २, २,
 ३, ३; अप ६, १, ५; विध ६७, ८.
अभि-प्र✓पत्(गती), अभिप्रपतेन्
 वौश्रौ ९, १८ : १९.
अभि-प्र✓पद्, अभिप्रपद्यते आपश्रौ
 २०, १, ८; वौश्रौ १७, ३९ : २०;
 आपश्रु २, ६, २ : ४; अभि-
 प्रपद्यते माश्रौ २, ४, २, ७; अभि-
 प्रपद्यन्ते वौश्रौ ४, १५ : १५;
 २५, १४ : ३; भाश्रौ ८, २० : ४;
 अभिप्रपद्यते वौश्रौ ९, १८ : २२.

a) वैप १, ६६२ h द्र. । b) पाभे. पृ २९२ m द्र. । c) अस. । d) पाभे. वैप १ परि. अभि...
 गुणीहि काठ २, १५ टि. द्र. । e) नाप. (शुक्ल-पक्ष-). कस. । f) व्यप. (कक्षसेनाऽपत्य-। तु. तां १०, ५, ७) ।
 g) अपत्यार्थे अण् प्र. । h) विप. (सार्पराश्याख्य-ऋग्विशेष-).

अभिप्र-पद्य वीथौ २५, ८ : ७.	अभि-प्र✓वृज्, अभिप्रवृजति आपथौ	६, ५, ११; २४, १, १३; †अभि-
†अभि-प्र✓मृश, अभि...प्रमृश	१, १७, ४XX; वीथौ; अभिप्र-	प्राणिमि आपथौ ५, ११, ५; वीथौ
ऋप्रा ८, ४५.	वृजतः आपथौ १२, २२, ४;	२, १६ : ३८; माथौ ५, ६, ४;
अभि-प्र✓यम् (यमने) > अभिप्र-	अभिप्रवृजन्ति आपथौ ५, १४, ५;	माथौ १, ५, ३, ६; वाथौ १.४,
यस्य माथौ २, ३, २, ९; १२;	११, १७, ३†; १२, ५, ४XX;	२, १४; वैथौ १, १० : १३;
३२; ३, १८; ४, २८; ४, २, ६.	वीथौ; अभिप्रवृजेत् वीथौ २०,	हिथौ ६, ५, ११; अभिप्राण्यात्
अभि-प्र✓या, अभिप्रयाति वीथौ	२ : २०; अभिप्रवृजेयुः वीथौ	माथौ ११, २, १८; वैथौ १३,
१५, २४ : १०; माथौ १०,	२९, १२ : ४.	३ : ४.
२०, १; अभिप्रयान्ति वीथौ १५,	अभिप्र-वृजन- -नम् वीथौ २५,	अभिप्रा(प्र-अ)गत्- -गन् वाथौ ३,
५ : १३.	३१ : ४.	२, ५, १०.
अभिप्रययौ वीथौ १८, १३ : ४;	अभिप्रवृजन-मन्त्र- -न्त्रम्	अभिप्रा(प्र-अ)ण्य आपथौ ६, २५,
अभिप्रययुः वीथौ १८, २६ : ८.	आपथौ ८, ७, १७.	१०; २६, १; २; माथौ.
अभिप्र-याण- -णस्य अप १, ३१, १.	अभिप्र-वृज्य आपथौ १, ३, ५;	अभि प्रा(प्र✓अ)प्, अभिप्राप्नुयात्
अभिप्र-यान्- -यान् माथौ ५, १,	माथौ १, ३, ७XX; माथौ.	वैथौ १३, ८ : ३; हिथौ १४,
५, १४; १६; -यान्तः आपथौ	अभि-प्र✓सू (प्रेरणे), अभिप्रमुवन्ति	६, १३; अभिप्राप्नुयुः निस ३,
१३, २०, २.	या ९, २६.	७ : १३.
अभिप्र-याय आपथौ १०, २९, १;	अभिप्र-सून्- -त्तः या ११, १२.	अभिप्रा(प्र-अ)प्ति- -प्तिम् या ३,
२०, १६, १५; २२, ८, १३; माथौ.	अभि-प्र✓सृ, अभिप्रसारयति आपथ	१५.
अभिप्र-यायम् काथौ २४, ३, २७;	१, ३०, २०; हिथ १, २, २८;	अभिप्रा(प्र-अ)प्नुवन्- -वन् वीथौ
आपथौ १९, १५, ८; हिथौ २३,	८, १७.	९, ६ : ८.
३, २९; लाथौ १०, ५, ९.	अभिप्र-सारण- -णम् आपथ १, ६,	अभि✓प्र, †अभिप्रवन्त वाथौ १०,
अभि-प्र✓युज्, अभिप्रायुक्त निम्	४; हिथ १, २, २९.	१२, १५; १४, ५७, १; आपथौ
७, ६ : १८; अभिप्रयुक्तीत् निम्	अभि-प्र✓सृप् > अभिप्र-सृत्त- -त्ताः	१७, १८, १; या ७, १७, २०.
५, ४ : २२.	वेताथौ १८, १५.	अभि-प्रे(प्र✓इ), अभिप्रेति वीथौ १,
अभिप्रयुज्यते निम् ८, १० :	अभि-प्र✓स्था > अभिप्र-स्थित- -तः	२ : ५; ६, १ : १७; १५ : १९
२६.	वैथौ २०, २२ : १०.	XX; वैथौ; पा १, ४, ३२; अभि-
अभि-प्रयोग- -गः निम् १०, ३ :	अभि-प्र✓सृ, अभिप्रस्त्रावयति वैथौ	प्रयन्ति या ३, १२; अभिप्रेयात्
३०; -गम् निम् ९, १३ : २३.	१०, २१ : १५; अभिप्रस्त्रावयेत्	वाथौ ४, १४, २; वीथौ २२,
अभि-प्र✓वृत् > अभिप्र-वर्तमान-	वीथौ ९, १७ : २०.	१४ : ७-१०; कौण्ड ५, १, १.
-ने आण्ड ३, १२, ८; -नेषु	अभिप्र✓हि, अभिप्रहिणोति वीथौ	अभिप्र-यन्- -यन्तः हिथौ १८,
आण्ड २, ६, ५.	६, ७ : २१.	३, ५.
अभिप्र-वृत्त,त्ता- -त्ता या २, ९;	अभि-प्रा(प्र✓अ)ण् (प्राणने), अभि-	अभिप्रा(प्र-अ) य- -यान् ऋप्रा
-त्ताः वेज्यो ३.	प्राणिति आपथौ २, १४, ९; ५,	१४, ३७; -यैः या ७, ३.
अभिप्रवृत्त-त्व- -त्वात् मीस् ११,	११, ५; १५, २, १०; वीथौ २,	अभिप्राया(य-आ)दि- -दिषु
३, १३.	१६ : ३७; माथौ ५, ६, ४;	पावा ५, १, ११९.
अभि-प्र✓वेप्, अभिप्रवेपेरन् वीथौ	माथौ १, ५, ३, ६; वाथौ १, ४,	अभिप्रे(प्र-इ)त्- -तः या ३, १४;
१३, १२ : ४; २६, ५ : १८.	२, १४; वैथौ ६, ३ : ९; हिथौ	१६; ६, ९; १०; -तम् या १, ६;

३,११; ४,६; ५,८; ११; -ताः
लाश्रौ १०, १२, ११; -तानाम्
आपश्रौ १, ३, ७; हिश्रौ १,२,
२६; -तानि या ९, २८; -ते
माश्रौ ९,११,४.

अभिप्रे(प्र-इ)त्य हिश्रौ १४,३,४०;
द्राश्रौ ४,३,२; ९,४,१४; लाश्रौ
२,३,२; ३,८,८; या १, ७; २,
३;२०;९,१४;१९;११,२;५;६^३.

अभि-प्रे(प्र✓ई)र्, अभिप्रेरयति वैश्रौ
३,३ : ५.

अभि-प्रो(प्र✓उ)क्ष्, अभिप्रोक्षति
माश्रौ १, २०, १२; अभिप्रोक्षन्
आपश्रौ १,१९,१; २; ९,१०,९;
वैश्रौ ४,६;८;२०,१८ : २; हिश्रौ
१,५,३९^३.

अभिप्रो (प्र-उ) क्षण- > ण-
तस्(ः) वैश्रौ १८,११ : ४;६^५.

अभि√प्लु, अभिप्लवति हिश्रौ १८,
३, ११; अभिप्लवेरन् अप्राय
२,७; ५,४.

अभिप्लवयति कौश्रु १९, १३.

†अभि-प्लव^१- -वः आश्रौ ७,७,९;
८,१३,३१; १०, ३, २२; ४, ३;
११, १, १३; ५, ५; शाश्रौ ११,
४, १; १३, १६, २; ३; १७, २; १९,
२०; १६, २५, ६; २९, ३; काश्रौ
१३, २, १; २४, १, ७; २, २;
३, ७; आपश्रौ; -वम् शाश्रौ
१३, २१, ८; आपश्रौ; -वयोः
आश्रौ १२, १, ५; द्राश्रौ ८, ४,
२०; लाश्रौ ४, ८, १७; -वस्य
शाश्रौ ९, २१, ८; द्राश्रौ; लाश्रौ
४, ८, ३^०; -वाः आश्रौ ११, ६,
१××; शाश्रौ; -वान् आश्रौ १०,

१, १६; ११, २, १९; अप १, १०,
१; -वान् आश्रौ ११, ७, ४; १०;
११; शाश्रौ १३, १९, ७; ९; १४;
१६^२; २१, ५; काश्रौ २४, ७,
२३; आपश्रौ २१, १५, ११; १४;
२३; १६, ६; ८; वैश्रौ २६, १७;
७; निस् ५, ६ : २४; १० : २;
-वानाम् आश्रौ ११, ३-४, १;
काश्रौ २४, ५, ११; वैश्रौ २६,
१७ : ८; २१ : ८; लाश्रौ १०, ३,
२०; ५, ७; १४, १३; निस् १०,
४ : ८; -वे आश्रौ ७, ६, ७; शाश्रौ
१०, ९, ५××; लाश्रौ; -वेन आश्रौ
७, १०, १; -वेभ्यः काश्रौ २४, ३,
१६; -वेषु काश्रौ २४, ३, २८;
द्राश्रौ ७-८, ४, १०; लाश्रौ ३, ४,
९; ४, ८, १०; १०, ५, १५; ६, ५;
-वौ आश्रौ ११, ५, ५; ६, ११;
१२, २, ६; शाश्रौ.

आभिप्लविक^१- -कम् आश्रौ
८, ७, १४; शाश्रौ १२, २७, ६;
१६, २४, १३; -कस्य आश्रौ ७,
५, १८; शाश्रौ १०, ९, ९; निस्
४, ५ : ६; -कान् शाश्रौ १६,
८, २६; -कान् द्राश्रौ ९, २,
१७; लाश्रौ ३, ६, १८; वैताश्रौ
३१, १७; ३३, १; -कानाम्
आश्रौ ११, ४, २; ७, ५; १२,
२७, २; १३, १९, १३; १६,
२३, २३; २४, १७; २६, ८; २७,
३; -कानि शाश्रौ १३, १५, ६;
१७, १; १६, २४, १५; वाश्रौ ३,
२, ४, १; निस् ५, ३ : १८; -के
शाश्रौ १३, १५, ५; लाश्रौ १०,
६, १२; ७, १; निस् ५, ३ : ३०;

४ : ७; -केन आश्रौ ७, १०, ८;
८, ६, १९; ९, ९, ९; १०, ५, २१.

अभिप्लव-चतुरह^१- -हः आश्रौ
१०, ३, १४.

अभिप्लव-तन्त्र^१- -न्त्रे निस् ५,
११ : १४; १८.

अभिप्लव-ता- -ताम् निस् १०,
४ : ४.

अभिप्लव-ध्यह^१- -हः आश्रौ ८,
५, १०; ९, १, ५; १०, ३, ५;
२८; -हम् आश्रौ ११, १, ११.

अभिप्लव-न्याय- -येन निस्
५, ६ : १२; १३; ९, ४ : ३८.

अभिप्लव-पञ्चाह^१- -हः आश्रौ
११, १, १२; निस् ९, ११ : २;
१३ : १८; २१; -हम् लाश्रौ

४, ८, १३; १५; निस् ५, ११ :
३५; ९, १० : ९; १३ : २५;

-हस्य वैताश्रौ ४१, १८; -हाः
लाश्रौ १०, ४, ६.

अभिप्लव-पृष्व^१- -पृष्वयोः
द्राश्रौ ८, ४, १९; लाश्रौ ४, ८,
१६; -पृष्वान् द्राश्रौ ८, ३, २४;
३०; लाश्रौ ४, ७, ५; १०^१६;

-पृष्वाम् लाश्रौ १०, १०, १७.

अभिप्लवपृष्व्या(पृष्व-अ)हन्^१-
-हानि आश्रौ ७, ५, १.

अभिप्लव-प्रथम^१- > ँवत्
वैताश्रौ ३६, २६.

अभिप्लव-मध्य- -ध्ये काश्रौ
२४, ४, १४.

अभिप्लव-वत् वैताश्रौ ३२, १;
११.

अभिप्लव-स्तोत्रिय^१- -यान्
वैताश्रौ २७, ११; ३४, ७.

a) वैतु. भाष्यकारः अभिः कप्र. इति । b) वैप. १, परि च द्र. ।

आद्याभि^० इति पाभे. । d) रिप. । तस्येदमीथष् उक् प्र. । e) षस. ।

c) सप्र. आद्यस्याभि^० <>

f) द्वस. । g) ँष्ठ^० इति

पाठः ? यनि. शोधः ।

अभिप्लव-स्तोम- -मः शांथ्री
१३, २२, २; -मौ शांथ्री १३,
२१, २.

अभिप्लवस्तोम-पृथ्व्यदेश-
रोहा(ह-अ)र्थ^१- -र्थः लाथ्री
१०, २०, १६.

अभिप्लवा(व-अ)तिरात्र^१-
-त्राणाम् निस् १०, २ : ३८.
अभिप्लवा(व-अ)न्तर- -रयोः
काथ्री २४, २, २८.

अभिप्लवा(व-अ)भ्यास- -सेन
काथ्री २४, ३, २९.

अभिप्लवा(व-अ)यन^१- -नम्
शांथ्री १३, १९, २०.

अभिप्लवा(व-अ)हन्- -हानि
आथ्री ९, ८, २६.

अभि√बलाय(<बल-)> अभि-
बलायमान- -नम् या १०, ३.

अभि√भा> †अभि-भा^१- -भा या
९, ४५; -भाः आपथ्री २, २०,
६; माथ्री २, १९, १; हिथ्री २,
५, ४०.

अभि√भाप्, अभिभापने मांशि १०,
९; याश २, ७०; अभिभापन्ने
या २, २; ५, १; अभ्यभापत वृदे
४, ७०; ५, २१; १००; अभि-
भापित दाथ्री ७, ३, ३; लाथ्री ३,
३, ३; काय ५, ३; अप ४०, ६,
२; शंघ ७७; ७८. आपथ १, ८,
१४; बौध ३, ८, २०; ४, ५, ४;
विध ७१, १०; ५८; हिध १, २,
१०२.

अभि-भाषण- -गम् बौध १, २,

४६; विध २८, १८; ४६, २५.

अभि-भाषित- -तः आपथ १, ६,
६; हिध १, २, ३१.

अभि√भुज् (भोजने), अभिभुजन्ति
शांथ्री १६, २१, २१.

अभि-भोक्तव्य- -व्यः हिध २, ५,
७६.

अभि√भुज् (कौटिल्ये) > अभि-
भुजत्- -जन् वाथ्री १, २, ८,
४२.

अभि√भू, अभिभवति आपथ्री
२२, ५, १८; वौथ्री १४,
४ : १५^३; हिथ्री १७, २, ४५;
निस् ५, ११ : २८; या ६, २६;
अभि...भवति शांथ्री १०, १५,
८; अभिभवन्ति शांथ्री १४,
३८, ६; वाथ्री ४, ७५ : १३;
निम् १, १३ : १४; ४, १२ :
२१; अभि...भवन्ति शांथ्री
१०, १५, ८^१; अमो...भवति
आपथ्री १७, ७, ८; अमो(भवामि)
ऋथ २, ४, ३१; शुप्रा ३, १२९;
अभिभवामि या ३, १०^२;
अभिभव मु १९, १; अभ्यभवन्
शांथ्री १०, १५, ८; अभ्यभवन्
शाथ्री १४, २३, १; ३८, १;
अभिभवेत् अथ ८, १; अभि-
भवेयम् शांथ्री १०, १५, २;
अभिभवेमहि शांथ्री १४, २३,
१; ३८, १^१; अभिभवेम या ३,
८; अमो...भवेम ऋप्रा ७, १०.
अभि...भवत् वौथ्री ९, ४ : ५;
१०, ७ : ७; †अभि(वभूत्) आथ्री

३, १२, ९; काथ्री २६, ६, २६;
आपथ्री १५, ४, ४; माथ्री ११, ४,
२; माथ्री ४, १, २३; वैथ्री १३,
५ : ८; १८, २ : १; २०, १३ :
६; शुभ्र ४, १०१; अभि...
भविष्यन्ति शांथ्री १४, २९, १;
४०, १; ५०, १; †अभिभूयासम्
वौथ्री १३, ३५ : १६; लाथ्री ३,
११, ४; अभि...भूयासम् आपथ्री
६, १८, २^१; अभि...अभि-
भूयासम् हिथ्री ६, ६, १७^६;
अभिभूयासम् शांथ्री ८, १७, ३^१;
†अभि(भुवत्) ऋप्रा २, ७६; उस्
२, ९; अभ्यभूत् वाथ्री ३, ३, ३,
२८^१; †अभि...अभूत् आपथ्री
१८, १९, ५; हिथ्री १३, ६, ३०;
†अभि...भूः आथ्री ३, ८, १;
आपथ्री २०, ३, १५; वौथ्री १५,
६ : ११; हिथ्री १४, १, ३६.

अभि-भुभूयत्- -वन् शांथ्री १४,
२३, १.

अभि-भाविन्- पाग ३, १, १३४.

†अभि-भु^१- -भवे माथ्री ३, ७, ५^१.

†अभि-भू^१- -भुवः आपथ्री १६,
३३, १; वैथ्री १८, १६ : ५३;
हिथ्री ११, ८, ११; -भुवम् अथ
९, ५; -भुवा आपथ्री २२, ५,
१८; हिथ्री १७, २, ४५^१; -भुवे
आपथ्री १४, २५, ११^१; माय
२, १ : ७; ऋप्रा २, ४१; -भूः
शांथ्री ८, १७, ३; काथ्री १५, ७,
५; आपथ्री ५, १५, २; ६, १८,
२^१; वौथ्री २, १८ : ७; ३, १६ :

a) इत्स. > षत्स. > वत्स. । b) द्र. । c) नाप. (संवत्सरसत्र-विशेष-) । पत्र. । d) = आसमूति- [तु.
या. प्रवृ.], अपशकुन- [तु. PW. प्रवृ.] । गत्स. उप. भवे इह प्र. । -भाः इति भवे विजन्तस्य प्र. । e) सप्र. आपथ
२, १९, ४ अपि, भोक्तव्यम् इति पामे. । f) सप्र. अभिभुजन् <> प्रत्यस्यति इति पामे. । g) पामे. वैप १ पार.
अभि...भूयासम् टि. द्र. । h) वैप १, परि. च द्र. । i) पामे. वैप १ परि. अभिभूवे काठ ३४, ४ टि. द्र. ।
j) भवा इति पाठः? यनि. शोवः (तु. आपथ्री.) । k) पामे. वैप १ परि. अभिभूः मै १, ५, ४ टि. द्र. ।

२३; १३, ३५ : १६; माथ्री ५, २, १, १३; वैथ्री ५, ६ : १३; हिथ्री ६, ५, १५; ६, १७^a; वैताथ्री ६, १; पाण् ३, १३, ४^b; आग्निष् २, ६, ८ : २४; कौस् १४, ७ : १४०, १०; अप १९, २, १; ३२, १, १३; शुभ्र १, ६२९; अश्र ६, ९७^c.

†अभिभू-तर- -रम् आथ्री ७, ४, ३; दाथ्री १८, ५, ९; वैताथ्री ४०, १४; ४१, १; ४२, ५.

अभि-भूर- -तम् वाण् १६, ११.

अभि-भूति- -ः ऋतिः आथ्री ४, १२, २; आपथ्री १२, २४, ७^d; १९, १३, २७^d; वौथ्री १९, ५; २४^d; वैथ्री १५, २१, १^d; हिथ्री ८, २, १७^d; १९^d; २३, २, ५०^d; या ०, ४६; -तिना आथ्री १४, ३८, १; -तीः वौथ्री १४, ४ : १३; ३३; -तीनाम् वौथ्री २३, ५ : १६; -तेः आथ्री १४, ३८, ५; -ः -ऋथ्री आथ्री १३, ५, ४^e; काथ्री २५, १४, १५; आपथ्री १४, १९, १; २६, २^e; वौथ्री १४, ४ : १७-१९; वैथ्री २१, ५ : ३; ५, ६; हिथ्री १५, ५, १६; १४, ५ प्राय ६, ३.

†अभिभू-यो(त-ओ)जस्- -ः

-जाः आथ्री १४, २३, ३; ४९, २.

अभि-भूर वैथ्री १२, २० : ९.

अभि-भूयमान- -नः या १३, २०. †अभि-भूव(र>)री- -री आपमं १, १६, ५; -रीः आपमं १, १६, ६^h.

अभि-भूर्- > अभिभूः सौर्य-दिव्य- -व्यानाम् पाण् २, १४, ९; १२; १४; १६

अभि-मङ्गल- -लानि पाण् ३, ५, २.

अभि/मथ्, न्थ, अभिमन्थति कौस् ६९, २३†; अभिमन्थेत् दाथ्री ९, १, ५; लाथ्री ३, ५, ५.

अभि-मथ्य वाथ्री १, ६, ४, १०.

अभि-मन्थन- -तम् कौस् ६९, १५.

†अभि/मद्, अभि- मद्त > ता ऋत्रा ८, १५; अभि(मद्त) > ता आथ्री ६, ४, १०; ८, ६, १२; शाथ्री १०, ९, १३; ११, १४, ९.

अभि/मन्, अभिमन्थते वैथ्री १८, ९ : १०ⁱ; अथ ४८, २४; आपथ्र १, २८, १; १७; हिथ्र १, ७, ३७; ५२; या ६, ३१†; अभि- मन्थते वौथ्री २५, २९ : १०; †अभिमन्थते वैताथ्री ३८, ३. अभिमन्थस्व काथ्री २०, १, ३३†; अभिमन्थेत आथ्री १६, ११, ११ⁱ; १७, ११, ६†; २७, ७, ११; २२, २०, १९; माथ्री ३, २, ११; वाथ्री १, ५, ३, ३. २, १, २, ३२; हिथ्री ११, ४, १०†, १७, ७, २९.

अभिमंस्ये तैत्रा १६, २०†. अभि-मत- -तम् काथ्रीमं ३५ : ५; -ते आण् ४, ७, २८.

अभि-मन्थ वृद् २, ५३.

अभि-मान- -नान् वृद् ६, ६०.

अभिमान-सामर्थ्य- -ध्वान् काथ्री ९, ५, ११.

अभि-मनस्^m- (> ✓अभिमनाय पा.) पाण् ३, १, १२.

अभि/मन्त्रि (< मन्त्र-), अभि-मन्त्रयते काथ्री २, ४, २१XX; आपथ्री; अभिमन्त्रयेते हिथ्री ८, ७, १९; वाण् २, ५; अभिमन्त्र-यते वैथ्री १४, ६; २; अभिमन्त्र-यन्ते आग्निष् ३, १०, ५ : १०^m; †अभिमन्त्रयामि अप ४, १, १२; १३; अभिमन्त्रयेत् आथ्री १, ३, ३०XX; काथ्री; अभि- मन्त्र-येत् आपथ्री ९, ५, १; १३, ४; १७, ६; १४, १८, १; अभिमन्त्र-येत् काथ्री २५, ११, २३^o; माथ्री.

अभि-मन्त्रण- -णःⁿ आथ्री २२, २६, ४; हिथ्री २३, ४, २०; -णस्^l काथ्री ६, १०, ७XX; वैथ्री; -णे आथ्री १५, १, १४. अभिमन्त्रण-ज- -जः काथ्री ६, १, १९.

अभिमन्त्रण-होम- -मः कौस् ७, २१.

a) पाणे. वैप १ पांर. आंभभूः नै १, ५, ४ 12. द्र. । b) पाणे. वैप १ पांर. अभिभू. ऋ १०, १६६, ४ टि. द्र । c) साम. ना. (आहुति-विशेष-) । गत. । d) पाणे. वैप १ पांर. तै ३, २, ५, १ 12. द्र. । e) पाणे. वैप १ अभिभू. काठ ३४, ४ 12. द्र. । f) ऋथ्री इति पाठः इयानि. शोधः (तु. तै ३, १, ७. १ तां ९, ४, ६) । g) वैप १, ११. च द्र. । h) पाणे. वैप १, पांर. अभिभू. ऋ १०, १५९, ६ टि. द्र. । i) विप. (५५-) । व्यु. † < अभि/भू (दीर्घां विभु. < अभि/भू 'शानमेव' इत्यन्ये ?) । j) द्रस. । k) प्राय. । l) सपा. अभिमन्थते <> अभिमन्थेत इति पाणे. । m) अभिमनस्- इति पाका. । n) पशुपविश्रय, अभिमन्त्रयते इत्यस्य स्थाने सपा. आपथ्री ९, ११, २३ पशुपविश्रयि, अभिमन्त्रयति इति, हिपि २३ : २७ पशुपविश्रयि इति च पाणे. । o) श्वेत इति Web. । p) नाप. (मन्त्र-) । करणे व्युद् प्र. (तु. तैत्रा २, ७, ७, २) । q) भाप. ।

अभिमन्त्रणा(ण-ञ्या)दि-दि
आपथ्रौ ८, १४, ३; ११, १९, १;
१७, १६, ८.

अभि-मन्त्रयां/कृ, अभिमन्त्रयां-
चक्रे वाध्रौ ३, ८८: ५.

अभि-मन्त्रित, ता- -तः अर ४, १,
१६: २, २; ६८, ४, ५; -तम्
वाध्रौ १, ४, २, १०; वेताध्रौ ५,
६; ३४, १५; अप १, ४२, ६;
१९, २, १; विध १२, ३; २३,
३७; -ताम् अप ९, २, ६.

अभि-मन्त्र्य शाध्रौ ४, ११, ६.

अभि-मन्त्र्य- -न्त्र्याणि कौम् ७, १६.

अभि-मर्शा-, मर्शान- प्रभृ. अभि
√मृशृ द.

अभि√मा(*बधा.), अभिमिमीते
आपथ्रौ १२, ९, ३; वैध्रौ १५,
११: ६; हिध्रौ ८, ३, ३.

†अभि-मा^१- -मया आध्रौ ३, १३,
१५; आपथ्रौ ४, ५, ४; ९, १३,
६; भाध्रौ ४, ६, ७; माध्रौ १, ४,
१, १४; वैध्रौ २०, २७: ६;
हिध्रौ १५, ४, ४; अप्राय ४, १;
-मा अप्राय ३, १.

†अभि-माति^२- -तीः आमिष्ट ३,
५, ६: १९; २१; २३; बौधि १,
५: ७: ८; १०; ऋप्रा २, ४७.

†अभिमाति-षा (<सा)ह^३-
-षाहः कौम् ६८, १०; शुप्रा ३,
१२२; -षाहम् आपथ्रौ ९, ८,
८; बौध्रौ ६, १५: १; १३, ४३:
१३; भाध्रौ १०, १६, १६; सु
१७, ४५; आमिष्ट २, ५, ३: ३५;
४: १३; बौध्रौ १, ६, १८; ३, ८, २;
-षाहे माध्रौ १, ६, ४, २१;
वाध्रौ १, ५, ५, ७; पाठ ३, १, २.

अभिमाति-षाह^३- -हो ऋप्रा ९,
३०†.

†अभिमाति-ह^४- -हः द्राध्रौ
११, १, ५; लाध्रौ ४, १, ५.

†अभिमाति-हन्^५- -हो बौध्रौ
७, ५: १०; माध्रौ २, ३, ३, ४;
५, २, १०, ४०; -हनम् आपथ्रौ
१६, ३०, १; वैध्रौ १८, २: ४१;
हिध्रौ ११, ८, ४; -हा आपथ्रौ
११, १२, २; बौध्रौ ३, २१: १;
६, २८: २८; १०, १६: १;
वैध्रौ ७, १३: ३; १४, ७: १६;
द्राध्रौ ११, १, ५; लाध्रौ ४, १, ५;
अप्राय ३, २.

†अभिमातिघ्नी^६- -घ्नीः
आपथ्रौ १६, ३३, १; वैध्रौ १८,
१६: ५५.

अभि-मान- प्रभृ. अभि√मन् द्र.

अभि-मारुह- अभि√मृ द्र.

अभि√मिथ्, मेथ् अभिमेथति आध्रौ
१०, ८, १०; शाध्रौ १६, ३, ३५;
४, १; १३, ९; बौध्रौ १५, ३०: २;
३; वेताध्रौ ३६, ३०; बुदे १, ४८;
अभिमेथन्ते बौध्रौ १५, ३०: ५;
अभिमेथेत् लाध्रौ ९, १०, ३; ५.

अभि-मेथित- -ते लाध्रौ ९, १०, ३.

अभि-मेथि(न् >)नी^७- -न्यः शाध्रौ
१६, १३, १०.

अभि√मिध्, अभिमेधन्ते आपथ्रौ
२०, १८, ५; ६; हिध्रौ १४, ४,
१२; १३.

अभि√मिह्, अभिमेहताम् अप
१, २६, ५†.

अभि√मील्, अभिमीलते आपथ्रौ
६, ७, ४.

अभिमीलयेत् भाध्रौ ६, ११, ५.

अभि-मुख, खा^८- पा ६, २, १८५;

-खः आध्रौ २, २, ४; ५; ४, ४,
४; ५, १, १९; १२, ३; काध्रौ २,
२, १; १८, ५, २०; आपथ्रौ ४,
१६, १८; ६, २५, १; बौध्रौ २५,
३०: ८; माध्रौ ३, १४, ३; ४,
५, २; २२, १४; ६, ४, ७; माध्रौ
५, २, १४, ५; वाध्रौ ३, २, २, २०;
वैध्रौ २, १०: ५; ६; १२, ११:
१; १५, ३५: १५; हिध्रौ २, ८, ५;
६, ४, ३६; ८, ८, २४; जैध्रौ २३:
३; कौष्ट २, ६, ३; शांठ ४, १२,
२३; भाग १, २: १३; २, ११:
४; हिगृ १, १, २२; गोष्ट १, ६,
१६; २, ८, ६; १०, १६; ३२;
४, ६, १३; ९, ४; कौस् ८७, ७;
१४; कप्र ३, ९, ६; आपथ १, ६,
२०; ३०, १८; २, ३, २; ५, ४, ६,
७; विध २८, २०; हिध्र १, २,
४३; २, १, ३३; ८४; २, ७; ५,
१४३†; -खम् काध्रौ १७, ४,
२८; आमिष्ट १, १, १: २३;
मागृ १, १०, १; १९, ४; २, २, १;
वैगृ १, ३: १२; ६, १: ४; गोष्ट
१, १, ११; वाध २०, २७; आपथ
२, २२, १३†; -खाः आध्रौ ५,
२, ७; आपथ्रौ १५, ८, ९; माध्रौ
४, ८, ३; गोष्ट ४, ७, १३; द्रागृ ४,
२, १२; -खान् माध्रौ २, ३, १,
२१; -खाम् माध्रौ १, ८, २, १९.

अभिमुखी- -खी या ३, ५;
-खीम् वाध्रौ १, ६, ३, १३.

आभिमुख्य- -ख्यम् या १, ३;
-ख्ये पा २, १, १४; -ख्येन अथ
४, ४.

अभिमुख-गत-मा(त्र>)त्रा^९- -त्रा

a) वैप १, परि. च द्र. । b) वैप १ द्र. । c) विप. । उस. उप. √हन् + कर्तरि ङः प्र. । d) नाप. (ऋग्-
विशेष-). । गस. । e) विप. । प्रास. वा बस. वा । f) सप्र. अभिमुखः <> अभिमुखम् इति पाठे. । g) विप. । बस. ।

अप २६, २, ८.
अभिमुख-शिरस्^a - रसम् आगृ ४,
 २, १५.
अभि✓मृ > अभि-मारुक^b - कः
 आगृ ४, ९, ३२.
अभि-मृत, ता- -ताः आपश्रौ ९,
 १२, ४^१; वैश्रौ २०, २५; ४^१;
 आगृ ४, ६, १; कौश्रु ५, ३, ३१^१;
 आम्रिगृ ३, ६, १ : २९^१; वौपि
 १, ९ : ६; -तेभ्यः आपगृ २३,
 १०.
अभि✓मृञ्, अभिमार्ष्टि वाश्रौ १,
 १, २, २०.
 अभिभ्रक्षयन्ते वौश्रौ २५, १४ :
 १०; १५ : ८.
अभि-मृज्य कौश्रु ४, ४, १०.
अभि✓मृश, अभिमृशते आपश्रौ
 १०, १७, ११; अभिमृशति
 आश्रौ ४, १३, १४; काश्रौ;
अभिमृशतः वैश्रौ १४, ६ : १८;
 हिश्रौ; अभिमृशन्ते आपश्रौ १२,
 २४, १३; वैश्रौ; अभिमृशन्ति
 आश्रौ ४, ५, ३५; शाश्रौ; आपश्रौ
 ९, ११, २३^१; वैताश्रौ १३,
 १३^१; अभिमृशामि आपमं २,
 ११, १५ आम्रिगृ; अभिमृशामः
 आम्रिगृ २, १, ४ : २०^१; ऋअभि-
 मृशामसि आपमं २, १३, ५^१;
 भाग्य; अभि... अभिमृशामसि
 हिगृ १, २४, ३; अभिमृशेत द्राश्रौ
 ५, १, ६; लाश्रौ २, ५, ६; अभि-
 मृशेत् आश्रौ २, ९, १५; काश्रौ;

अभिमृशेरन् आश्रौ ५, ६, २६;
 द्राश्रौ; अभिमृशेयुः द्राश्रौ ३, १,
 १० ××; लाश्रौ.
अभिमृश्यते जैश्रौका १०५.
अभिमर्शयति माश्रौ १, ७, १,
 ४८; २, १, ५, १५; अभिमर्शयन्ते
 कागृ ४५, १२; अभिमर्शेयुः
 शाश्रौ १६, १८, १२.
अभि-मर्श^d -र्शः आपश्रौ १४, २१,
 ७; -र्शे वौश्रौ २२, ६ : १९.
अभिमर्शा (र्श-अ) भिहोम^e -
 -माभ्याम् वौश्रौ २२, ६ : २०.
अभि-मर्शन- -नः वौश्रौ १, १७, १^१;
 -नम् वौश्रौ १४, ४ : ९; २१ :
 ३४^१; २२, ४ : ५; २३, १५ :
 १०; १३; माश्रौ १, ६, ४, ७;
 -नात् वौश्रौ २५, १७ : १७;
 माश्रौ १, ७, १, ३७; ३८; २, १,
 ५, १३; १४; हिश्रौ ६, ४, ३८;
 -ने वौश्रौ २३, १३ : २४; -नेन
 वौश्रौ २२, ८ : ३६; माश्रौ २,
 ३, ३, ५.
अभिमर्शन-निह्वन^f -ने द्राश्रौ
 १४, २, ९; लाश्रौ ५, ६, १०.
अभिमर्शन-संमार्ग^g -गौ वैश्रौ
 १४, ४ : ६.
अभिमर्शान(न-अ)न्त^h -न्तम्
 वाश्रौ २, १, ८, १८.
अभिमर्शनो(न-उ)पस्थान^k -
 -नम् कौश्रु ५२, १६.
अभि-मृशत्- -शन् आपश्रौ १७,
 २३, १.

अभि-मृश्य आश्रौ १, ११, ६××;
 शाश्रौ; हिध १, २, २२^१.
अभि-मृश्यमान- -नम् वैताश्रौ
 २८, ९.
अभि-मृष्ट- -ष्टम् माश्रौ १, ३, ३,
 २१; कौश्रु १२४, ४^१; -ष्टस्य
 अप्राय ६, ३; -ष्टात् काश्रौ ९,
 ५, ११; -ष्टानि आम्रिगृ २, ७,
 १० : १२; -ष्टे वैश्रौ १६, २२ :
 ८; हिश्रौ ९, ४, ५९; -ष्टेषु कौश्रु
 ९३, ३०.
अभि✓मृच् > अभि-मृक्त- -क्तः
 आपध २, १२, १३^१.
अभि✓म्लै > अभि-म्ल्यात्- पाउवृ
 ३, ८६.
अभि✓यञ्, अभियजते निम् २, ५ :
 ४; ११; २९; गोश्रु १, ५, ६; अभि-
 यजेन वौश्रौ २०, १ : ८; २४,
 २० : ७; २६, २९ : ५; गोश्रु ४,
 ७, २४.
अभि-यष्टव्य- -व्याः गोश्रु १, ५, ५.
अभी(भि-इ)ज्या^o -ज्या निम् २,
 ५ : २८; -ज्याम् निम् २, ५ :
 १८.
अभी(भि-इ)यक्षत्^p -क्षते लाश्रौ
 ७, १०, २१^१; २४^१; ११, १६.
अभी(भि-इ)ष्ट, ष्टा- -ष्टाः जैश्रु १,
 ९ : ८; -ष्टे निम् २, ५ : ९;
 -ष्टौ निम् २, ५ : १६.
अभि✓या, अभियाति आपध ५, २४;
 कौश्रु १४, ३; अभियातम् कौश्रु
 १२९, ३^१; अभ्ययात् बुदे ६,

a) विप. । बस. । b) विप. (देव-) । गस. उप. उकञ् उलं. प्र. । c) °मृषाः इति पाठः ? यनि. शोधः
 (तु. आपश्रौ.) । d) अभीवृ° इति पाठः ? यनि. शोधः (तु. तैआ ६, ३, २) । e) पाभे. पृ ३०३ II द. ।
 f) पाठः ? C. °मृशति इति शोधः (तु. गोत्रा २, २, ११) । g) सप्र. °मृशामः <> °मृशामसि इति पाभे. ।
 h) भाप. । i) द्रस. । j) नाप. (मन्त्र-) । उप. करणे कृत् । k) समाहारे द्रस. । l) सप्र. अभिमृश्य
 <> अभ्यधिमृश्य इति पाभे. । m) धा. अर्थः ? । n) सप्र. स्वपञ्चभिन्नक्तः <> सूर्याभिनिन्नक्तः इति पाभे. ।
 o) नाप. । गस. । p) वैप १ द. । q) गानप्रकारोऽत्राऽनुसंधेयः ।

११०; ७, १०४; अभ्ययुः वृद्धे ७, ९०; ८, २०; अभियायात् शंघ २५३.	११, ९. †अभ्यराक्षीत् ^d आश्रौ २, ५, १२; आपश्रौ ६, २६, ३; भाश्रौ ६, ६, १; हिश्रौ ६, ७, ७.	२१; १०, १: ४; ७: ३५; -पा: निसू २, ११: १० X X; कौट ३, १२, ४; -पाणि निसू २, ११: २; ४, १२: २१; ५, ५: ५; ८: १०; ६, ४: १०; १०: २; -पान् कप्र २, ९, ४; -पामि: द्रागृ १, ३, २७; वृद्धे ७, १५१; -पाभ्याम् द्रागृ ३, २, १९; -पाम् वृद्धे ७, १५१; -पाय लाश्रौ १०, १७, १६; -पे निसू ७, ५: ६.
अभि-यात्- -तः अत्र ११, २१. अभि/याच् > अभि-याच्यमा (न- >)ना- -नाम् वाध १७, ७१.	अभि-रक्षल्- -क्षन्तः माश्रौ ३, ५, ७१.	आभिरूपक- पा ५, १, १३३. आभिरूप्य- -प्यात् द्राश्रौ २, २, १७; लाश्रौ १, ६, १६; -प्येण वौश्रौ २४, ६: ६; ८.
अभि/यु(मिश्रणे), अभियोधि वाश्रौ ३, २, ५, ५७१.	अभि/रम्, अभिरमन्ताम् जैगृ २, १: ३६; अभिरमन्तु कागृ ६३, २०; कागृउ ४१: २०; विध ७३, २६ ^e .	अभिरूप-तर, रा- -रः निसू ६, १: २०; १०, २: १४; -रम् निसू ३, १०: ३८; ८, १३: ४०; १०, २: १४; -राः निसू ३, १३: ४३; -राणि निसू २, ११: ६; ५, ९: १९.
अभि-युत- -तः या २, १९.	अभिरम्यताम् कौगृ ३, १४, १६ ^e ; शांगृ ४, २, ६ ^e ; गौपि २, ६, १३. अभिरमयेत् गौध ९, २९.	अभिरूप-भोजन ^f - -नम् गोगृ १, १, ६.
अभि/युज्, अभियुज्जीत अप १, ९, ८; १०, ६; ९.	अभिरस्यमान- -नाः आगृ ४, ६, १६.	अभि-रूपक- पाग २, १, ५९; ७०. ‡अभिरोति ^h वाश्रौ ३, २, ७, ५६.
†अभि-युक्त- -क्तः विध ३, ४३; ९, २१; ३०, २८.	अभि-रत- -तः गौध ८, ९; -ता: विध ७३, २६.	अभि-लक्षण ⁱ - -गम् हिश्रौ २१, २, ३५.
†अभि-युज् ^g - -युजः आश्रौ २, १, २६; वौश्रौ २८, २: ४४; बौगृ १, ३, ३; या ४, ५.	अभि/रस्, अभिरसति काश्रौ २०, ५, ४.	अभि/लप, अभिलपति अप २४, २, ४; अभिलपेत् आज्यो १०, ११.
अभि-योक्त- -क्ता विध ९, २०.	‡अभि-राजन् ^f - -जा निसू ७, ५: १४; १८;	अभि/लिख् > अभि-लेख्य ^k - > ख्य-प्रत्यय ^k - -यः शंघ ३०९.
अभि-योग-> ण-विशेष ^b - -षात् मासू १, ३, २७.	अभि/रुद् > अभि-रुदित- -तः अप ६८, २, २४.	अभिलेख्य-विरोध ^b - -धे शंघ ३०९.
अभि-योजन ^c - -नानाम् बौश्रौ २२, १४: २२; -ने बौश्रौ २२, १४: २१.	अभि/रुध्, अभ्यरुन्द् वाधूश्रौ ४, ५०: २.	
अभि/रक्ष्, अभिरक्षति आपश्रौ ७, ४, ५१; हिश्रौ ४, १, ६११; अप ७१, १९, १; या १२, ३२१; अभिरक्षतः वाश्रौ १, ३, ७, २०१; †अभिरक्षतु आश्रौ २, ५, २; ११, १२; शाश्रौ; †अभिरक्षताम् हिगृ १, १८, १; कौसू ९९, २; अभिरक्षन्तु आपमं १, ४, १०; २, २१, १५, आगिगृ; अभिरक्ष कौसू १३५, ९१; †अभिरक्षतात् आश्रौ २, १०, ४; बौश्रौ १४, १३: १२; कौगृ १, १७, ६; अभिरक्षेत् गौध	अभि-रूप, पा ^g - पाग ५, १, १३३; -पः निसू ६, १२: ८; ७, १: ६; -पम् आश्रौ ५, १२, १४; निसू २, ११: २२ X X; वैगृ ३, १: ३; गोगृ २, ३, १; आपध २, ८, ४; हिध २, १, १०५; -पस्य गौध १०, ४३; -पा निसू ६, १०: ३५; ७, ५: १५; ७: २५; ४०; ८, ५: ११; १६; ६: ४४; ९, ३: १८;	

- a) वैप १ परि. च द्र. । b) षस. । c) भाप. । गस. । d) पाभे. वैप १ परि. अभ्यरक्षीत्
मै १, ५, १४ टि. द्र. । १रा° इति वात्रि. । e) सप्र. अभिरमन्तु <> अभिरम्यताम् इति पाभे. । f) पाठः ? ।
g) षस. पूप. नाप. (विद्वस्-). । h) पाठः ? अभिवेकाय संस्करोति इति शोधः प्रतीयत । i) अस. वा. क्वि. ।
j) नाप. (राजकीय-लेख-). । गस. । k) तृस. ।

अभि/लिप्,म्प, अभिलिम्पति
 बौश्रौ १०, १०:९; अभिलिम्पन्ति
 बौश्रौ १०, १०:१०.
 अभि-लिप्य वैश्रौ १८, ६:२; कौसू
 ६९, ११.
अभि/वच्, अभ्युवाच बौश्रौ १८,
 ४४:८.
 अभ्यु(भि-उ)क्त- -क्तः अप्राय ३,
 ४; -क्तम् या ३, ४.
अभि-वत्- -वत्, -वतः निसू ६,
 ४:१९; -वन्ति निसू ६, ४:
 १०.
 अभिवती- -तीपु निसू ७, २:९.
अभि/वद्, अभिवदति आपश्रौ
 १०, १२, १४[†]; बौश्रौ १२,
 १४:२४; १७, १९:९; वायूश्रौ
 ४, ३७:५; १०८:११; वैश्रौ
 ७, ७:१५; १२, १:६; वैताश्रौ
 ३१, १५; निसू ३, १०:४३;
 बौध १, ६, ३; २, ६, १३;
 अम ९, ६[†]; या १, १६[†]; अभि-
 वदन्ति वृदे ८, ९६; अभि...
 वदामि सु १९, २; अभिवद सु
 ३०, ३; †अभि...वद कौसू
 ४६, ५४^२; १०६, ७; अभ्यवदत्
 ऋअ २, ४, १५; वृदे ६, १५२;
 अभिवदेत् शाश्रौ १४, ५१, १;
 भाश्रौ १०, ९, २^२; हिश्रौ १०,
 २, ३५; वाध १३, ४१; आपध
 १, १४, ११; हिध १, ४, ४३;
 †अभि...वदेत् आपश्रौ १६,
 ३४, ४; वैश्रौ १८, २१:३२;
 हिश्रौ ११, ८, १५.
 अभिवदित्यति वाधूश्रौ ४, ३७:
 २२.

अभिवादयते आपश्रौ १०, १२,
 १४[†]; वैश्रौ १२, १२:७; हिश्रौ
 १०, २, ३४; गोगृ २, ३, १३;
 ३, २, ३६; या १, १६; अभि-
 वादयति वैध २, १०, ७; अभि-
 वादयन्ते हिपि १८:१८; अभि-
 वादयन्ति वैश्रौ १२, १२:७;
 अभ्यवादयताम् वृदे ५, ६५;
 अभिवादयीत कौश्रौ १, २०, ८;
 ३, ११, १^७; आपध १, ५, १२;
 १६; १४, १६; २२; हिध १, २,
 १२; १६; ४, ४८; ५१; अभिवा-
 येत जैश्रौ १:२१; शांगृ ४, १२:
 १^७; अभिवादयेत् शंघ ४०;
 बौध १, २, ३२; विध २८, ३०;
 वैध २, ९, ६; ११, ४; अभिवादये-
 रन् हिश्रौ १०, २, ३५; द्राश्रौ
 ७, ३, १३; लाश्रौ ३, ३, १५.
 अभि-वदत्- -दत्सु अप ७२, २,
 २.
 अभि-वदितुम् वाध १३, ४४.
 अभि-वाद- -दः निसू २, १:१९;
 गौध ६, ५.
 अभि-वादन- -नम् हिश्रौ ३, १, ६;
 आम्रिगृ २, ६, ८:४१; बौपि
 २, ९, २१; ११, ८; शंघ ३७;
 आपध १, ५, १९; १४, १३;
 १७; बौध १, २, ३३; विध ३२,
 ४; ५; १५; हिध १, २, २०; ४,
 ४५; ४८^८; -नाय आपध २, ४,
 १७; हिध २, १, ७०; -†ने कागृ
 ४१, १५; हिध १, २, १८^८;
 गौध ६, ६^९.
 अभिवादन-प्रत्यभिवादन^१- -ने
 आपध १, ५, १७^८.

अभिवादाना(न-अ)न्त- -न्ते विध
 २८, १७.
 अभिवादनीय- -यम् आगृ १,
 १५, ८; वागृ ५, १८; गोगृ २,
 १०, २१; द्रागृ २, ४, १२; -या:
 वैध २, १०, १०.
 अभि-वादयितुम् मागृ १, १८, २.
 अभि-वादि- -तः आपध २, ८, १;
 हिध २, १, १०२.
 अभि-वादिन्- -दि निसू ६, २:
 ३१.
 अभि-वाद्य, द्या- -द्यः काश्रौ २२,
 ५, २६; आपध २, ४, १७; हिध
 २, १, ७०; -द्यम् आपध १,
 १४, १४; १५; १८; हिध १,
 ४, ४६; ४७; ४९; -द्या विध
 ३२, १३.
 अभि-वाद्य कौश्रौ २, ४, ३; शांगृ २,
 ७, ४; बौपि २, ११, ८; गोगृ
 २, ४, १०; द्रागृ १, ४, ५; विध
 ७३, ३२; वैध १, ४, १६.
 †अभ्यु(भि-उ)द्य बौश्रौ १२, १५:
 १०.

अभि/वनु > †अभि-वा (न्य >)
 न्या^१- -न्याम् भाश्रौ ८, १३, १३;
 -न्यायाः आपश्रौ ८, ११, १७;
 भाश्रौ ८, १३, २; माश्रौ १, ७, ५,
 २८; ६, २०; वाश्रौ १, ७, ३, २०;
 ४, १८; -न्यायाम् बौश्रौ २५,
 २:१९; -न्याये आपश्रौ ८, १४,
 १४; बौश्रौ ५, ११:२; २०;
 २१, ४:५; भाश्रौ ८, १५, १४;
 १६, ८; आम्रिगृ ३, ६, २:९;
 ८, १:६; २:४०; बौपि १,
 १०:२; १४:६; १५:४७;

a) पावा १, ४, ५३ परामृष्टः द्र. । b) सप्र. श्रौत <> श्रौत इति पाभे. । c) स्वखलितः पाठः
 (तु. भाष्यम्) । d) सप्र. अभिवादाने <> अभिवादनप्रत्यभिवादाने इति पाभे. । e) अभिवादतः इति
 काचित्कः पाठः । f) द्रस. । g) अभिवन्ध इति C. । h) वैप १ परि. च द्र. ।

हिपि १५: १५.

अभिवान्य-व(त्स >)त्सा^१-

-त्सा: हिथ्रौ १७, ४, २७;

-त्साया: आथ्रौ ३, १०, १७;

माथ्रौ ९, १४, १८; वैथ्रौ ९, ३:

५; ६: ३; हिथ्रौ ५, ३, ३४;

हिपि २२: ११; -त्सायै आपथ्रौ

९, ११, ५; हिथ्रौ ५, ४, ३६;

१५, ३, ३१.

अभि√वन्द > अभि-वन्द वैगृ १,

९: ९; ४, ४: २२; ६: ८; अप

६८, ३, ४.

अभि-वन्द- -न्द: वैध २, १०, ९;

-न्दा: वैध २, ११, १.

अभि√वप > अभ्यु(मि-उ)प्त-

-प्त: अप्राय ३, २^१.

†अभ्यु(मि-उ)प्य > प्या आथ्रौ ९,

८, ४.

†अभि-वयस्^१- -यस: आथ्रौ ९, ७,

३२; शाथ्रौ १४, २१, ३; वैताथ्रौ

३४, २०; -या: आपथ्रौ १७,

६, १; हिथ्रौ १२, २, १४.

अभि-वर्न- अभि√वृत् द.

अभि-वर्धयिष्यत्- अभि√वृष द.

अभि-वर्षण- अभि√वृष द.

अभि√वस्(आच्छादन्), अभि

दयति वाथ्रौ ३, २, ६, २०^०.

अभिवस्ते कौस् ९८, २^१.

अभिवासयति काथ्रौ २, ५, २५:

वौथ्रौ १, १०: ११; वैथ्रौ ४,

१०: १३.

अभि-वासन- -नात् माथ्रौ १, २,

३, ११; ७, ३, १२; ६, १०.

अभि-वासयत्- -यन् आपथ्रौ १,

२४, ३; वैथ्रौ ४, ९: ११; हिथ्रौ

१, ६, २५.

अभि-वासिन- -त: हिथ्रौ १२, ५,

१९: -ते हिथ्रौ ९, ५, ७; -तै:

हिथ्रौ १३, ५, १०.

अभि-वास्य आपथ्रौ १८, १२, १३;

वौथ्रौ १, १०: ११, ५, १: ३१××.

अभि√वह, अभिवहति अप्राय १, ३:

या ६, ३५; अभि...वहन्ति वौथ्रौ

१६, २९: १०; †अभिवहामि

आपथ्रौ २४, १४, १२; वौथ्रौ ३,

२८: २०; अभिवह आपमं २,

२१, ३१; भागृ २, २९: १०;

हिगृ १, १२, ४; †अभिवहत

आपथ्रौ १२, ३, २; हिथ्रौ ८, १,

४१.

अभि-वहन- > ँन-स्तुति- -तिम्

या ४, १६.

अभि-वाह-> ँह-तस् (:) वौथ्रौ

१७, १४: ९; हिथ्रौ ९, ८, ३४.

अभि-वा(ह्य >)ह्या^१- -ह्याभि:

वौथ्रौ १५, १: ७.

अभि-वोढुम् वाधृथ्रौ ४, ८५: १;

११.

अभि√वा, अभिवाति वौथ्रौ १५,

८: १३; अभि...वाति हिपि

१०: १३^१; †अभिवानु आपथ्रौ

२०, १२, २; वौथ्रौ १५, ३७:

१३; भागृ २, १०, ५; वैप्रा ११,

६.

अभि-वाच्^१- -वाचम् अप ७०^०, ६,

३^१.

!अभिवाज्य^१ वैथ्रौ २०, २०: ५.

१अभि-वात्^१- -तस् माथ्रौ ५, १, ८,

११.

२अभि-वा(त >)ता- अभि√वै द.

अभि-वाद- प्रसृ. अभि√वद् द.

अभि√वाश्, अभिववाशे या ९, ४.

अभि-वि√कम्, अभिविक्रमयति

माथ्रौ ६, १, ५, १९.

†अभि-वि√कशा, अभिव्यक्ता^१

माथ्रौ १, २, १, ४०; २, २, ४,

४०; वाथ्रौ १, २, ४, ३४.

अभि-वि√क्षिप्, अभिविक्षिपति

वौथ्रौ १३, ३८: ४; अभिवि-

क्षिपेत् आपथ्रौ १५, १८, ९;

माथ्रौ ११, १८, १०; आपगृ २३,

८; भागृ २, ३०: १०.

†अभि-वि√ख्या, अभिविख्येपम्

आपथ्रौ १, १८, ४: १२, १८, २;

वौथ्रौ १, ५: २३; द, ३१:

१६; भाथ्रौ १, २०, ३; वैथ्रौ ४,

५: ५; १४, १६: १०; हिथ्रौ

१, ५, २९; १०, ४, ५; शुप्रा ३,

९९; अभिव्यस्यम् आपथ्रौ १,

१८, ३; ११, १८, २^१; निम् ४;

३: २१-२३; २४^१; गोगृ ३, २,

३४^१; द्रागृ २, ५, ३१^१.

†अभि वि√चक्ष्, अभि...विचष्टे

आपमं २, १२, ८; आगृ २, १,

४: १३; हिगृ २, ४, १.

अभि-वि√चर्, अभिविचारयति

या १, १३; १४.

अभि-वि√च्छिद्, अभिविच्छिद्येत्

अप्राय ६, ९.

अभि√विज् > †अभि-वेग- -ग:

शाथ्रौ १७, ९, ५; ऋप्रा २, ६८.

अभि-वि√ह्रा, अभिविजानीथात्

वौथ्रौ २१, २४: १२.

अभि-वि√तन्, अभिवितन्वति

शाथ्रौ १७, ५, ६.

a) वैप १, परि. च द्र. । b) पाभे. वैप १, परि. उपावहियमाणः तै ४, ४, ९, १ टि. द्र. । c) सप्र.

आपथ्रौ १४, ५, १२ हिथ्रौ ९, ८, ७ वासयति इति पाभे. । d) विप. । गस. उप. कर्मणि ण्यत् प्र. । e) प्रास. ।

f) आभिवाचम् इति मूको. ? । g) पाठः ? (तु. संस्कृतुः टि.) । h) अस. । i) पाभे. वैप १ परि. द्र. ।

अभि-वि-तत्य आपथ्रौ २१, १८, ३;
हिथ्रौ १६, ६, २७.
अभि/विद् (ज्ञाने), अभिवेदयते
वाध्रूथ्रौ ३, ७९ : १९२.
अभि-विदक^a - ऋम् अप ३, १,
१३.
अभि/विद् (लाभे), अभिविन्देत्
हिथ्रौ १२, ४, १३.
अभि...विदन् आपथ्रौ २, २०,
६१.
? अभिविदि वौथ्रौ २६, २२ : २०.
अभि-वि/दृग्, अभिविदृशयति
आपथ्रौ १५, २०, ८; वौथ्रौ ९,
१९, ३७; माथ्रौ ११, २१, ८; ११;
भाग् ३, ६ : १७; १८; अभि-
विदृशयेन माथ्रौ ११, २१, १०.
अभि/विध्, अभिविध्यति कौम्
३२, ९.
अभि-वि/धा, अभिविधत्ते वौथ्रौ
२६, २ : २३; २२ : ३; ३३ : २३;
निम् ९, १२ : २३; अभिविदृधति
निम् ४, १२ : २; अभिविदधीत
वौथ्रौ २४, १६; १२; निम् १०,
५ : १; अभिविदृध्यात् हिथ्रौ
१५, १, ४८.
अभिविधीनये निम् ९, २ : ७;
८ : १०; अभिविधायन्ते निम्
९, ८ : ३.
अभि-वि-ध^b - वौ पा ३, ३, ४४;
५, ४, ५२; पावा ३, ३, ४४.
अभि-वि-हित- -तः वौथ्रौ २४, २१;
२; -तम्^c लाथ्रौ ३, ११, २^d.
अभि-वि/धाच्, अभिविधावेत्
आपथ्रौ १०, २०, १११.

अभि-वि/नी > वि-नीत- -तः गौध
८, ११; ११, ३.
अभि-वि-परि/हृ, अभिविपरिहरेत्
वाथ्रौ १, १, १, ११.
अभि-वि/पग्, अभिविपश्यति
वाध्रूथ्रौ ४, ९० : ४; आपथ्र १,
५, ८१; हिध्र १, २, ८१; या ७,
२२; १०, २२; ४६; १२, २६;
२७; अभिविपश्यन्ति या १२,
२७; अभिविपश्यसि या १२,
२४; २५; †अभिविपश्य आपथ्रौ
१६, २५, २; वैथ्रौ १८, १२ : १;
हिथ्रौ ११, ७, ४२.
अभि-वि/बुध्, †अभिविबुध्यताम्
पाग् १, ५, ११; काग् २८, ४.
अभि-वि/सृज् > अभिवि-सृज्य
कौम् ६९, १६; अप्राय १, ३.
अभि-वि/राज्, अभिविराजति या
११, २७.
अभि-वि/वस् (दीर्घः) > अभि-वि-
वास- -सात् क्षुग् १, ७ : १०.
अभि/विश्, अभिविशामि भाग्
२, २९ : ९१.
अभि-वि/शस्, अभिव्यशंसन्
वाध्रूथ्रौ ४, १०० : १९; २१;
२२, २४; २५; २७; २८; १००^e;
२; ३; ५; ६; ८; ९; ११.
अभि-वि/प्यन्द्, अभिविप्यन्दयति
वौथ्रौ ९, ४ : १९; १०, ८ :
३; १४, २६ : ३; ७; १०; वैथ्रौ
१३, ६ : ६; १८, २ : ७; अभिवि-
प्यन्दयेत् आपथ्र ३, ६, २ : १०;
वौपि १, १० : ३.
अभिवि-प्यन्दमान- -तः वौथ्रौ १४,

२६ : ४; ८.
अभिवि-प्यन्दयित्वा आपथ्र ३, ६,
२ : १०; वौपि १, १० : ३.
अभिवि-प्यन्द्य कौम् ८६, ५.
अभि-वि/सृज्, अभिविसृजेत्
आपथ्रौ १०, १६, ४१.
अभि-वि/हन्, अभिविहन्ति वौथ्रौ
११, १० : ४; १६, २० : ११;
१७, ३९ : २२; १८, १८ :
३.
अभि-वि/हृ, अभिविहरति कौम्
७१, ९; अभिविहरेयुः आथ्रौ
५, १३, ६.
अभिवि-हारम् निम् ३, ५ : २३.
अभि-वी (वि/ई) क्ष्, अभिवीक्षते
आपथ्रौ ६, १०, २; माथ्रौ १,
२०, ३; माथ्रौ १, २, १, ४०;
२, २, ४, ४०; हिग् १, १५, ८०;
†अभिवीक्षे जग् १, १७ : १३^f;
१४^g; अभिवीक्षेन माथ्रौ ६,
११, ६; हिथ्रौ ३, ७, ८५; वैथ्रौका
३६^f.
अभिवीक्षयति भाग् १, १९ : ४;
अभिवीक्षयन्ति निम् ४, ३ :
१९; द्राग् २, ५, ३०.
अभिवी (वि-ई) क्ष्य जैथ्रौका १८९;
आपथ्र २, ७, ६ : २८; ८ : १०.
अभि-वीर- -रः शुप्रा ३, ९९[†].
अभि/वृ(आच्छादने), अभि...वृणु[†]
आपथ्र ३, ८, २ : ३४; वौपि
१, १५ : ४२.
†अ(भि >)भी-वृत्, ता- -तः तैप्रा
३, ७; -वृत्तम् वैग् २, ७ : २;
ऋप्रा ९, ६; -ता या २, ९६; ऋप्रा

- a) विप. (गुरु-) । गस. उप. कर्तारं कृन् प्र. उस्. (पाठ २, ३७) । b) =अभिव्याप्ति- ।
उप. भावे क्रिः प्र. । c) उपसृष्टस्य धा. पर्याणहने वृत्तिः । d) सप्र. अभिविहितम् <> विहितः इति पामे. ।
e) अभिवीक्ष्य इति Böht. [ZDMG ५२, ८४] शोधः विमृश्यः । f) 'वीक्ष्ये' इति पाठः ? यनि. शोधः ।
g) पामे. वैप. १ परि. अभि...ऊर्णुहि टि. द्र. ।

९,४७.
अभि√वृत्, अभिवर्तन्ते बौध्रौ २०,
 १४ : १९; २३ : ३४; ४१;
 अभिवर्तस्व आगृ २, ६, ५१;
 अभिवर्तेरन् बौध्रौ २०, १४ :
 २०; २३ : ३५; ४२.
 अभिवावृते ऋप्रा ९, १८; २६१.
 †अभिवर्तये आप्रथौ ८, ४, २;
 बौध्रौ ५, ४ : ३०; ९ : ३०;
 १७ : १९; १८ : २४; हिथ्रौ
 ५, १, ४५; अभिवर्तय माथ्रौ १,
 ७, २, २३१.
 †अभि, भौ-वर्त^१ - त्तः शांथ्रौ १४,
 २२, ८; आप्रथौ १४, १९, ६;
 बौध्रौ १०, ४२ : ४; लाथ्रौ ८,
 १२, १२; १०, ७, ८; ८, २;
 लुस् १, ४ : २४; निस् ४, १३ :
 ३२; ५, ३ : १; ५ : १६; ६ :
 १७; ऋअ २, १०, १७४^b; शुप्रा
 ३, ९७१; -वर्तम् शांथ्रौ १२,
 ९, ८; १३, ५, १४; आप्रथौ १४,
 २०, १; हिथ्रौ १५, ५, २१; निस्
 ५, ३ : २९; ४ : ६; १४; ८ :
 २०; ६, ३ : ३; आगृ ३, १२,
 १२; -र्तन निस् ५, ९ : १८६;
 कौस् १६, २९; अशां १९,
 ४; ऋअ २, १०, १७४; अय
 १, २९; अर्प २ : १०; १७;
 शौच ३, १२.
 अभीवर्त-कारित^२ - ताः निस्
 ९, ११ : १८.
 अभीवर्त-कालेय^d - ये द्राथ्रौ ८,
 २, ९; लाथ्रौ ४, ६, ९.
 अभीवर्त-प्रकरण- -णे लाथ्रौ

१०, ८, २.
 अभीवर्त-मणि^३ - गिम् अय १,
 २९.
 अभीवर्त-मध्यन्दिन^४ - ने निस्
 ५, ६ : ३१^१.
 अभीवर्त-लोक- -के निस् ५,
 ९ : ११; २२.
 अभीवर्त-सुहान^d - नयोः निस्
 ९, ११ : १७.
 अभीवर्त-स्तोत्रीय^f - यम्
 लाथ्रौ १०, ८, ६; -याः लाथ्रौ
 १०, ६, १; -यान् द्राथ्रौ ९, २,
 १७; लाथ्रौ ३, ६, १८.
 अभीवर्त-स्थान- -ने शांथ्रौ १२,
 ९, १७.
 अभीवर्त- (त-अ)पाय- -यात्
 निस् ९, १२ : १८.
 अभीवर्त- (त-उ)त्तम^६ - माभ्याम्
 कौस् १६, २९.
 अभि-वृत्ति- -र्यै निस् ६, ३ : ३.
 अभि-वृष्य ऋप्रा ७, ९; ९, १८१.
 रअ (भि >) भी-वर्त^१ - त्तः ऋप्रा
 ९, ७१.

अभि√वृष्, अभिवर्धताम् आपमं १,
 ८, ६; ७; अभि-वर्धताम् आपमं
 १, ८, ७; †अभिवर्धताम् गौपि
 २, ५, १२; अप ४४, ४, १०; विध
 ७३, २८.
 †अभिवावृषे आप्रथौ ९, १४,
 २; बौध्रौ २९, १३ : ३.
 अभिवृष्येत वैथ्रौ २१, १६ :
 १०^१.
 अभिवर्धयेत् बौध्रौ २०, १३ :
 २८; २४, २८ : ७.

अभ्यवर्द्धयिषीत् निस् ४, ६ : ७.
 अभि-वर्धयिष्यत् - ष्यन् अप १८^२,
 १, १.
 अभि-वृद्ध- -द्धे निस् १०, ९ : ९.
 अभि-वृद्धि- -द्धिः निस् ३, १२ :
 ४; १०, ८ : २४; -द्धिम् वैध १,
 ९, १०; -द्धयै बौध्रौ २०, १३ :
 २८; अय १, १.
 अभिवृद्धि-कल्प- -ल्पः बौध्रौ
 २६, ६ : १३.
अभि√वृष्, अभिवर्धति बौध्रौ ६,
 ६ : २२; २, १९ : ४९; १४, १ :
 १३; वैथ्रौ २१, १ : ५; बौगृ ३,
 ४, २७; अप २, ३, ३; ५७, १, ७;
 अभिवर्धतु आपमं १, १३, ७;
 पागृ ३, १५, २०; भागृ २, ३१ :
 २१; अभिवर्धत् बौध्रौ २६, ७ :
 १४; गो २, २२; अप्राय ४, ३;
 अभिवर्धयुः आमिगृ १, २, ३ :
 २०.
 अभिवृष्येत बौध्रौ २९, ५ : ११^१
 अभि-वर्षण- -णम् आथ्रौ १२, ८, ९;
 -णात् बौध्र १, ६, १९.
 अभिवर्षणा(ए-अ)वसेचन^d -
 -नानाम् कौस् ४१, १४.
 अभि-वृष्ट- -ष्टः बौध्रौ २८, ९ : ६;
 -ष्टम् वैथ्रौ २०, ५ : ६; २१,
 १६ : ३; हिथ्रौ १५, १, ४५;
 -ष्टस्य हिथ्रौ १५, ७, १५; -ष्टाः
 बौध्रौ १८, १२ : १३; -ष्टे आथ्रौ
 ३, ११, २२; वैथ्रौ २१, १६ :
 ११; अप्राय ६, ३.
 अभि-वृष्यमाण- -णः बौध्रौ १४,
 १ : १५; २८, ९ : ६; भाथ्रौ १०,

a) वैप १, परि. च द्र. । बौध्रौ. हिथ्रौ. विरह्य्य पूष. दीघेः (पा ६, ३, १२२) । b) व्यप. (ऋषि-
 विशेप-) । c) विप. (प्रगाथ-) । तृस. । d) द्वस. । e) नाप. । मलो. कस. । f) षस. उप. = प्रगाथ- वा तृच-
 वा । g) षस. । उप. = मन्त्रद्वय- (शौ १, २९, ५; ६) । h) उप. कर्तरि अच् प्र. । i) सप्र. अभिवृष्येत
 <> अभिवृष्येत इति पाठे. ।

८,६; वैश्रौ १२,११ : ७; हिश्रौ १०,२,२५.
अभि-वेग- अभि/विज् द्र.
अभि/वेष्ट्, अभिवेष्टयति आमिगृ १,२,३ : ८.
अभि/वै > २अभि-वा(त>)ता^१-
 -तासु लाश्रौ ८,५,३.
अभि-चोदुम् अभि/वह् द्र.
अभि-व्य(वि/अ)न्, अभिव्यनिति^१
 बौश्रौ १४, १२ : २६०; ?अभि-
 व्यनेयात्^१ वाश्रौ ३,२, ५, १५०;
 अभिव्यनेयाताम्^१ आपश्रौ १२,
 ८,७; वैश्रौ १५,९ : ८.
 अभिव्य(वि-अ)न्य^१ हिश्रौ ८,२,३२.
अभि-व्य(वि-अ)वा(व/अ)न्, अभि
 व्यवान्यात् वाश्रौ ३,२,५,१३०.
अभि-व्या(वि-आ)/दा(दाने)>
 अभिव्या-दान^१- नम् ऋप्रा १४,६२.
 अभिव्या-दाय माश्रौ ५,२,२,९.
अभि-व्या(वि-आ)ह्, अभिव्याहरति
 आपश्रौ २४,१३,११; बौश्रौ १६,
 ६ : १५; भाश्रौ ११, २१, ४;
 वाधुश्रौ ४,५० : १२; हिश्रौ ६,
 ३,१२; १०,१,१८; जैश्रौ १७ :
 ११; १३; २१; अभिव्याहरन्ति
 वैश्रौ १२, ३ : ८; अभिव्याहरेत्
 आपश्रौ १५, १९, ८; भाश्रौ;
 अभिव्याहरेयाताम् आमिगृ २,
 १, ५ : ३०; भागृ १, २६ : ८;
 हिगृ २, ४, ११; अभिव्याहरेयुः
 निस् ३,११ : ७.
 अभिव्याहारयति आपश्रौ १५,

२०, ४; आमिगृ १, १, ३ : ३;
 भागृ ३, ६ : १०; ७ : ६; हिगृ
 १, ५, २; कौस् ३८, २३; ६९, ६;
 अभिव्याहारयन्ति हिश्रौ १०, १,
 १४; अभिव्याहारयेत् गौध २, ९.
अभिव्या-हरत्- -रन् आपश्रौ २४,
 १३, ११.
अभिव्या-हरिव्यत्- -व्यन् आपश्रौ
 १५, १९, ८; भाश्रौ ११, २०, ४.
अभिव्या-हार- -रः निस् १, १३ :
 १३; ८, १ : २३; -रम् निस्
 ३, १२ : ९; -रे या १, १३;
 १४^३; -रेण निस् ३, १२ : २९.
अभिव्या-हृत्य शाश्रौ १, ४, १५XX;
 जैश्रौ.
अभि-व्यु(वि/उ)च्छ्, अभिव्युच्छेत्
 शाश्रौ १३, १०, ४; हिश्रौ १५,
 ६, ३१; अभिव्युच्छेत् आश्रौ ६,
 ६, १; आपश्रौ १४, २३, १२;
 माश्रौ ३, ७, २; हिश्रौ १५, ६, ३२.
अभि/व्ये, अभिव्ययस्व कौगृ १, ९,
 ३१; शांगृ १, १५, १०.
अभि/व्रज्, अभिव्रजन्ति वैताश्रौ
 १८, ९; ३३, २५.
अभि-व्रजन्- -जन् बौश्रौ ३, २७ :
 ३४.
अभि-व्रजय वैताश्रौ ४, २०; कौस्
 ४४, १८; २९; १०६, २; १२६, ३.
अभि/व्लङ्ग् > अभि-व्लङ्ग्य ऋप्रा
 ७, ९१.
अभि/शंसु, अभिशंसति आपध
 १, १९, १५; हिगृ १, ५, ११७.

अभि-शस्यते अप ७०^३, ९, ३.
अभि-शंसित्- -तुः बौध २, १, ६१.
अभि-शंस्य वाध २३, ३९.
अभि-शस- -शसा माश्रौ २, ३, ७,
 २१.
अभि-शस्त- -स्तः बौश्रौ २८,
 १ : २; २ : ५१; वैश्रौ; -स्तम्
 शंघ ३०३; -स्तस्य शंघ ४३४;
 -स्ताः आपध १, २९, ८; हिघ
 १, ७, ६५; -स्तात् आपध १, ३,
 २५; हिघ १, १, १००; -स्ताय
 आपध १, २४, १५; विघ १३,
 ४; हिघ १, ६, ६४; -स्ते कौस्
 १४१, ३८.
आभि-शस्य^१ - -स्त्यम् आपध
 १, २१, ८; २६, ६; हिघ १, ६,
 ३८^६; ७, १७.
अभि-शस्त-पतित-दर्शन^१->
 ०ना (न-आ) श्रया (र्य-अ)भ्यु-
 दय^१- -येषु पागृ २, ११, ५.
अभि-शस्त-पतित-वर्जम् गौध
 २, ४२.
अभि-शस्त-रजक-पतित-चाक्रिक-
तैलिक-ग्रामयाजक-शूद्र-सांवात्स-
रिक-कुलिक^१-सुवर्णकार-चर्मकार-
कर्मार-चित्रवृत्ति-घोषक^१-तन्तु-
वाय-रङ्गावतारिक^१-कूटमानकृ-
त्^१-छौण्डिक-वधजीवि-नृशं-
सा^१(म-आ)मविक्रयि-वार्षुषि-
क-तारिक^१-भगवृत्ति^१-व्रात्य-
तस्कर-गणान्न-भोजन^१- -नेषु
 शंघ ४३५.

a) नाप. (लव्याधिता-गो-). गस. उप. कर्तरि क्तः प्र.। b) वैप १, ३३१ h द्र.। c) सप्र. व्यनिति
 <> व्यवान्यात् इति पाभे.। d) सप्र. व्यनेयात् <> व्यनेयाताम् <> व्यन्य, गृह्णाति इति पाभे.।
 e) व्यु. ?। अभिव्यनेत् इति शोषो विमृश्यः। f) भाप. (प्रसन-ल्लोप- L वैतु. उ. विप.। बस. इति)। g) भाप.
 (ब्रह्महत्या-)। h) शस्यम् इति पाठः ? यनि. शोषः (तु. BW.)। i) द्रस. > षस.। j) द्रस.। k)
 यथाक्रमं पराशरमाधवीये (२, १ [पृ ३८५-३८६]) कुलटा^१, पोषक^१, रङ्गावतारि^१, मानकूट^१, नृशंसि^१, श्यावक^१,
 नन्दवृत्ति^१ इति पाभे.।

†अभि-शस्ति^a - -स्तीः भागृ १, २८ :
 ७; -स्तेः कौसु ५, १; -स्त्याः
 आप्रथौ ६, १६, १२; १२, ३, ९;
 बौथ्रौ; -स्त्यै आप्रथौ ४, १३, १.
 †अभिशास्ति-कृत- -कृतम् जैथ्रौ
 ९ : ९; -कृते आप्रथौ ५, २४,
 ४; हिथ्रौ ३, ५, २५.
 †अभिशास्ति-पा^b - -पाः आथ्रौ
 ४, ५, ३; शाथ्रौ ५, ८, २; बौथ्रौ.
 †अभिशास्तिपावती^c - -ती^b
 आम्रिण १, ५, १ : २३; २५; भागृ
 १, १३ : ७; ९.
 †अभिशास्ति-पावन्^d - -वा^b
 आपमं २, २, ७; ८; पागृ.
 अभि-शस्यमान- -नः बौथ्रौ १३,
 ८ : २००; माथ्रौ; -नम् आप्रथौ
 १०, २०, ८; गौध १९, ११;
 -नस्य काथ्रौ २२, ८, ८; माथ्रौ
 ५, १, ५, ५७; हिथ्रौ १७, ५, ७;
 २२, २, १९; लुसु १, २ : २०.
 अभि/शाप् > अभि-शप्त्- > ष्त-
 पनित-भ्रूणघ्न- -घ्नान् वैगृ ६६:१.
 अभि-शाप, पा^e - -पः वृदे १, ५८;
 वाध १७, ३; -पाः ऋअ २, ३,
 ५३; वृदे ४, ११८.
 अभि/शाब्दि (<शब्द-) > अभि-
 शब्दयत्- -यन्तः आथ्रौ ६, १०,
 २३.
 अभि/शाम्, अभिशामयेत् माथ्रौ ३,
 २, १३.
 अभि-शार्चर^f - -राय माथ्रौ २, ५, ३,
 १४.
 अभि-शस्त- प्रसृ. अभि/शंसु द.

अभि/शास्, अभिशासते अप १,
 ४५, ६.
 अभिशासयेत् अप १, ४४, ४.
 †अभि-शास्तृ^g - -स्ता आप्रथौ १९,
 १२, ८; बौथ्रौ १९, ३ : २१;
 हिथ्रौ २३, २, १९.
 अभि-शिरस्^h - > अभिशिरो (स्-अप्र
 >) प्राⁱ - -प्राः गोगृ २, ९,
 १४.
 †अभि/शुच् (दीर्घ), अभिशोच
 आथ्रौ ३, ६, २३; काथ्रौ ६, १०,
 ३; बौथ्रौ ४, ११ : १; माथ्रौ ७,
 २३, २; माथ्रौ १, ८, ६, २०; वैथ्रौ
 १०, २२ : ३; हिथ्रौ ४, ५, ५५;
 अभिशोचः^h आथ्रौ ६, १०, १९;
 आम्रिण ३, ६, १ : २; ७, ४ : १२;
 बौपि १, ८ : १.
 अभिशुचः बौथ्रौ १०, ४ : १५.
 अभि-शोचⁱ - > †अभिशोच-
 मानव^j - -वाः अप १, ३७, ३^k;
 अशां ७, ३.
 अभि/शृ, अभिशरीः वाधुथ्रौ ३,
 १६ : ३.
 अभि/श्चुत्, अभिश्रोतयते कौसु
 ३०, ११; अभ्यश्रोतयत् अप्राय
 २, ५.
 अभ्यचुश्चुत् काथ्रौ २५, ११,
 ३३^l.
 अभि-श्रोत्य कौसु १३, ११.
 अभि/श्रयै > अभि-शीन-, अभि-
 श्रान- पा ६, १, २६.
 अभि/श्रम्, अभिश्राम्यन्ति बौथ्रौ
 १८, ४४ : ३.

अभि/श्रि > अभि-श्रयण- >
 णीय- -यः या ७, २२.
 अभि-श्रयत्- -यन्तम् सु १९, ४.
 †अभि-श्री^m - -श्रियम् आम्रिण २,
 ५, ८ : १४; बौगृ २, ७, १७;
 -श्रिया आथ्रौ ७, ७, ७; ९, ५, ५;
 -श्रीः आपमं २, ८, ८ⁿ; आम्रिण
 १, ३, ४ : १४^o; या ७, २२^p.
 अभि/श्रिष् > †अभि-श्रिष्^q -
 -श्रिषः आप्रथौ १५, १७, ८;
 काथ्रौ २५, ५, ३०; बौथ्रौ ९,
 ४ : २३; १७ : ११; माथ्रौ ११,
 १७, १०; माथ्रौ ३, ८, २; वैथ्रौ
 १३, ६ : ९; आपमं १, ७, १;
 कागृ २७, २; गोगृ २, ४, ३; कौसु
 ५७, ७; अप्राय ६, ५; -श्रिषे
 कौसु ७७, ७.
 अभि/श्रु, अभिश्रावयति निसू २,
 ४ : ३३ : अभिश्रावयेत् आम्रिण
 ३, ४, १ : ४.
 अभि-श्रावण- -णम् बौगृ ३, १२,
 ६; १३; -णे बौगृ २, ११, ४८.
 अभिश्रावणा(ण-अ)न्त^r - -न्तम्
 बौपि २, ११, ८.
 अभि-श्रावयत्- -यन् बौगृ २, ११,
 ४०.
 अभि-श्रावयितृ- -यिता बौगृ २,
 ११, ६६.
 अभि/श्र्वस् > अभि-श्र्वास^s - -सः
 काथ्रौ ४, ८, २६.
 अभि/ष(<स)च् > अभि-षाच्^t -
 -षाचः शाथ्रौ ८, २१, १^u.
 अभि/ष(<स)ञ्ज, अभिषजति

a) वैप १, परि. च द्र. । b) पामे. वैप १ परि. अभिशास्तिपाः शौ २, १३, ३ टि. द्र. । c) भाप., नाप. (ऋग्विशेष-) । उप. भावकरणयोर् घञ् प्र. । d) लु. पामे. च पृ २६८ l, m द्र. । e) नाप. (मुहूर्त-
 Lइष्टका-) । f) अस. । g) विप. । बस. । h) पामे. वैप १, परि. द्र. । i) गस. उप. कर्तरि अच् प्र.
 j) कस. । k) संस्कृतुः टि. अभिशोचमानाः इति शोधः? । l) पामे. वैप १ परि. अभिश्रुटिः खि ४, ६, ४ टि. द्र. ।
 m) गस. उप. भाप. ।

काठश्री १२२.

अ(भि>)भी-षञ्ज्^२ - ऋः वाधूश्री
३,५ : १; -ऋः शंघ १०५.

अभि/षट् पा ८,३,११९.

अभि-षव- अभि/षु(अभिषवे) द.

अभि/ष(<स)ह्, अभि...साक्षीय^३
कौस् ४५,१६१.

अभ्यसाक्षि आपमं १,१६,११.

अभि-षहमाण- णः या ३,३.

†अ(भि>)भी-षाह^६ - वाट् दाश्री

११, १, ५^६; लाश्री ४, १, ५^६;

चाअ ३९ : १२^६; या ३, ३६;

अप्रा ३,४,१; -षात्^६ आपश्री

१७,६,१; हिश्री १२,२,१४.

†अ(भि>)भी-षाहिन्- षाही^६

दाश्री ११,१,५; लाश्री ४,१,५.

अभि/षि(<मि)ञ्, ङ्च्, अभिषि-

ञ्चते पागृ २, ६, ११; अभि-

षिञ्चति काश्री १०,७, ४ XX;

आपश्री; अभिषिञ्चन्ति शाश्री

१५, १३, ४; वौश्री; †अभि-

षिञ्चामि काश्री १५, ५, ३१;

आपश्री; अभिषिञ्चन्तु वौश्री १८,

१७ : १११; †अभिषिञ्चन्तु वौश्री

१८, १७ : ६-८; १०; माश्री

१. ६, २, १७^३; अभिषिञ्चतम्

शाश्री ८,११,१३१; अभ्यसिञ्चत्

वृदे ६, १५३; अभ्यषिञ्चताम्

पागृ २, ६, १२; अभ्यषिञ्चन्त

आपश्री ६, १४, ७१; अभ्य-

षिञ्चन् †वौश्री १२, ८:६; १७;

वृदे ८,१; शुप्रा ६,५१; तैप्रा ६,

३१; अभ्यषिञ्चतम् शाश्री ८,

११,१३१; अभिषिञ्चेत् आपश्री

१४,३०,१; वौश्री; अभिषिञ्चेयुः

आपश्री २२,७,६; माश्री.

अभि...असिचम् वौश्री १८,

१७ : २१.

अभिषिच्यते शाश्री १५,२, १६;

१३, ७; काश्री; †अभिषिच्ये

अप्राय ६,४; अभिषिच्येत वौश्री

१८,२ : ९; ११; लाश्री ८,११,

२२; अभिषिच्येय वौश्री १८,२ :

८; १५.

†अभ्यषेचि वौश्री १०, ५८ :

४; ११, ७ : १५; १२, ११ : १६;

वैश्री १२, ६ : १२९; †अभ्य-

षिञ्चि आपश्री १८, २२, ४; वाश्री

३, ३, ४, ४७; हिश्री १३, ७, २६.

अभिषिञ्चेत् अत्र १७, २, ३;

अभिषेचयेत् अप ११, १, ७;

६८, २, ८.

अभि-षिक्त- पाग ४, २, ७५; -क्तः

शाश्री १६, १८, १; लाश्री; वैध ३,

१२, ७^६; हिध २, ५, १४२; -क्तस्य

वाध १५, २१; विध ६४, ४१;

-क्तानि आपश्री १२, ५, १०;

हिश्री २३, १, ८; -क्ताय आश्री

९, ३, ९; १०, ६, १०; शाश्री १५,

२७, १; वृदे ८, ७३; -क्ते वृदे

८, २; -क्तेषु वौश्री १८, २ : १४.

आभिषिक्त^६ - पा ४, २, ७५.

अभिषिक्त-पाणि-पाद्^{११} - -इः

वौध १, ४, १४१.

अभिषिक्ता (क्त-आख्या >)-

ख्य^१ - ख्यः वैध ३, १२, ६.

†अभिषिक्त^६ अभिषिच्येय^१ वौश्री

१८, २ : १५.

अभि-षिच्य आपश्री १७, १९, १०;

वौश्री १८, २ : १०; वैश्री.

अभि-षिच्यमान- -नः निस्र ७, १ :

११; -नम् आपश्री १८, १६, ६;

१२, ४, ११; २०, २०, ५; वाश्री;

-नस्य आपश्री १८, १६, ७;

२०, २०, १; ८; हिश्री.

अभि-षिञ्चन्- -ञ्चन् वाश्री १, ५, ४,

२४.

अभि-षिचिचान- -नः माश्री ५, २,

४, १; -नम् आपश्री १२, ४, ११;

-नस्य वाश्री ३, २, ७, १.

अभि-षेक^६ - -कः आपश्री २०, २४,

१४; वौश्री २५, ३१ : १३^३;

१४; वौगृ ३, २, ६२; अप ३, १,

१९; वाध २३, २८; -कम्

शाश्री १५, १६, ७; वौश्री २, ९ :

३१; वाश्री ३, २, ७, ३३; आमिगृ

२, ४, १० : १६; ५, ८ : ५; वौगृ

२, ७, ९; ११, १०; अत्र ३३, ६,

१२; -कस्य आपश्री १८, १५,

८; १६, ११; २०, १९, १२; २०,

९; वौश्री १०, ५७ : १८; ५८ :

७; ११, ७ : ७; १८; १२, १० :

९; ११ : १९; १८, १ : १०^३; २ :

१२^३; १६; १७; ३ : ६^३; ४ :

५; ६; ७ : ३; ४; हिश्री १४,

४, ३६; ३९; -काणाम् वौश्री

१२, ११ : ९; -कान् वौश्री १२,

१० : १७; अत्र १, १०, ४;

-काय काश्री १५, ४, ४१; वौश्री

१०, ५४ : ११; ११, ७ : ६;

वाश्री २, २, ४, १०; वैश्री १७,

१६ : २; अप ५, १, ३; १२^३,

a) भाप., नाप. (मन्त्र-विशेष- [शोध.]) । भावकरणयोर् घञ् प्र. । b) पाभे. वैप १ परि. अभि...आसीत्

टि. द्र. । c) वैप १, परि. च द्र. । d) पाभे. वैप १ परि. अभीषाट् काठ ३९, ११ टि. द्र. । e) पाभे. वैप १ परि.

अभीषाट्: काठ ३९, ११ टि. द्र. । f) नाप. (गुह्योत्पन्न-राजन्य-). । g) नाप. (नगर-विशेष-). । h) विप. ४

बस.>द्वस. । i) बस. । j) पाठः ? अभिषिच्येय, अय, अभिषिच्येय इति त्रि-पदः शोधः ।

३,४; ३३, ३, ७; -के काश्रौ १९,
४, १८; बौश्रौ २२, ११ : १७;
-केण काश्रौ १५, ६, ८; -केषु
आपश्रौ १९, ४, १३; वैश्रौ ११,
१ : ३; हिश्रौ १३, ८, ४४.
अभिषेक-कलश- -शेषु अप
११, १, ६.
अभिषेक-गण^१- -णः अप ३२,
१, ३०.
अभिषेक-दिव्य-वायव्या(व्य-
आ)भ्रिय-गुर्वनुश^२- -ज्ञाः वैगृ
१, २ : १.
अभिषेक-मन्त्र- -न्त्रैः अप ४,
२, २; १०, १, १.
अभिषेक-शेष- -षम् वाश्रौ ३,
३, ३, ३७.
अभिषेक-सामर्थ्य- -ध्यात्
काश्रौ १८, ५, ७.
अभिषेका(क-अ)भिकर्मकरण^३-
-णम् विध २८, ४.
?अभिषेकाभिग्रहणादि- -दि
वाश्रौ ३, २, ७, २९.
अभिषेका(क-अ)र्ह-राजपुत्र-
-त्राणाम् वाश्रौ ३, ४, ३, ४६.
अभि-षेकृ- -क्तारः बौश्रौ १५,
४ : ८.
अभि-षेक्य- -क्याः काश्रौ २०, २,
१७; -क्याणाम् वाश्रौ ३, ४,
१, १७.
अभि-षेक्ष्यत्- -क्ष्यन् कौसू १७, १.
अभि-षेक्ष्यमाण- -णः आपश्रौ २२,
२८, १; हिश्रौ २३, ४, ४१.
अभि-षेचन- -नम् आमिष्ट २, ४,
६ : २२; ५, ६ : ३१; ३२; -नाय
बौश्रौ १८, १ : ३; ३ : २; ४ :
३; ५ : ३; ७ : २; -ने आपष

२, ६, १०; हिध २, २, १०.
अभिषेचन-पात्र^४- -त्रेषु आपश्रौ
१९, ९, ७; हिश्रौ २३, १, ४७.
‡अभिषेचनीय^५- -यः आश्रौ
९, ३, ८; बौश्रौ; -यम् निमू ७
१० : १३; -यस्य काश्रौ १५,
३, ३४; आपश्रौ; -यात् काश्रौ
१५, ९, २१; -यान् बौश्रौ २२,
१८ : १५; -यानाम् बौश्रौ २२,
१८ : १४; -याय काश्रौ १५,
३, ३५; आपश्रौ १८, १२, २;
बौश्रौ १२, ७ : १; वाश्रौ ३, ३, ४,
२४; हिश्रौ १३, ३, ३, ४, १९; ५,
२; -ये आश्रौ ९, ४, ३; आपश्रौ;
-येन लाश्रौ ९, १, ४; ३, १; -येषु
काश्रौ १५, ५, ६; -यौ आपश्रौ
१८, १९, १४.
अभिषेचनीय-जनपद-नक्षत्र^६-
-त्रम् अप ७२, १, २.
अभिषेचनीय-दशपेय^७-
-ययोः काश्रौ १५, ३, ३३;
-याभ्याम् आश्रौ ९, ४, २; शांश्रौ
१५, १२, १२; -यौ आश्रौ ९,
३, ७; वाश्रौ ३, ३, ४, २३; द्राश्रौ
१, ४, ११; लाश्रौ १, ४, ७.
अभिषेचनीय-वत् काश्रौ १८,
६, १४.
अभिषेचनीय-संस्था^८- -स्था
वाश्रौ ३, ३, २, ३.
अभिषेचनीया(य-अ)न्त^९-
-न्ते काश्रौ १५, ८, २४.
अभि-षेचयां/कृ, अभिषेचयांचक्रे
या २, १०.
अभि-षेचयित्वा अप ११, १, ८.
अभि-षेचित- -तम् या २, १०.
अभि-षेच्य- -च्यः वैश्र ३, ११, ६;

-च्याः बौश्रौ २६, १० : १५.
अभि/षिच्, अभिषीव्यन्ति शांश्रौ
१७, ३, ५; ५, ९.
अभि/षु(<सु[अभिषवे]), अभि-
षुणोति काश्रौ ९, ४, १४;
आपश्रौ; अभिषुण्वन्ति शांश्रौ ७,
१५, १; काश्रौ; या ११, २;
अभि...सुण्वन्ति वाधूश्रौ ४,
७१ : ३; अभिषुण्वन्तु लाश्रौ
१०, ५, ९; ‡अभिषुणुत
बौश्रौ ८, ८ : ८XX; भाश्रौ;
अभ्यषुणोत् वाधूश्रौ ४, ८३ :
३; अभिषुणुयात् शांश्रौ १३, ६,
१; काश्रौ; अभिषुणुयुः आश्रौ
६, ८, ४; अप्राय ६, ४^१.
अभिषुषुवुः बौश्रौ १८, २९ :
२४; ?अभ्यषौषीत् बौश्रौ १७,
४५ : ४.
अभि-षव- -वः काश्रौ ९, ५, २;
बौश्रौ; -वम् बौश्रौ २६, १५ :
५; १३; २१; -वस्य आपश्रौ
१३, १, १०; वाश्रौ; -वात् काश्रौ
१०, ९, २९; बौश्रौ २१, २२ :
२०; -वान् काश्रौ १०, १, ३;
-वाय आपश्रौ ५, १२, ७; माश्रौ;
या ७, २०; १०, १९; १३, ४६;
-वे काश्रौ ९, १, ७; आपश्रौ
१३, १, ११; बौश्रौ २१, २१ :
१; २२ : १७; वैश्रौ; -वौ वैश्रौ
१५, १२ : १.
अभिषव-कल्प^{१०}- -ल्पः वैश्रौ
१५, ९ : ४.
अभिषव-मन्त्र^{११}- -न्त्रः हिश्रौ ८,
२, १३.
अभिषव-विपर्यास^{१२}- -सः काश्रौ
९, ४, ११.

a) नाप. (मन्त्रगण-विशेष-) । षस. । b) द्वस. । c) = स्नानाऽग्निहोत्र- । समाहारे द्वस. । d)
षस. । e) विप., नाप. (याग-विशेष-) । f) षस. > षस. । अभिषेचनीय- = राजन्- ।

अभिषवा (व-आ) दि- -दि
 आपथ्रौ १३, १, १; वैताथ्रौ २१,
 १२; हिथ्रौ ९, १, १.
 अभिषविन्^१- -वी^२ आपथ्रौ
 १७, ६, १; हिथ्रौ १२, २, १४.
 अभिषवो(व-उ)पदेश^३- -शान्
 काथ्रौ १०, ३, १५.
 अभि-षवण-> ण-प्रवा(द->)-
 दा^४- -दाम् या ४, १६.
 अभिषवण-होम- -मान् वैताथ्रौ
 १६, ११.
 अभि-षवमाण- -णेन हिथ्रौ १५,
 २, ९.
 अभि-पुत- -तः वाधृथ्रौ ४, ९६ :
 २XX; -तम् आपथ्रौ १२, १०,
 ६; १२, ५; माथ्रौ; -तस्य शांथ्रौ
 १४, १६, ५; काथ्रौ; या १३, ६;
 -तान् माथ्रौ २, ३, ४, ४; वैथ्रौ
 १५, १३ : १२; -ते आपथ्रौ
 १३, १, ११; दाथ्रौ ३, १, १८;
 लाथ्रौ १, ९, २०.
 अभि-पुत्य शांथ्रौ १३, ६, ३XX;
 काथ्रौ; आपथ्रौ १२, ८, ५^०.
 अभि-पुत्य- -त्यम् हिथ्रौ १५, ५,
 २२^१.
 अभि-पूय वैगृ ३, ९ : १०.
 अभि-पूयमाण- -णस्य बौथ्रौ १४,
 ४ : ४१; ४३; २९ : १२; हिथ्रौ
 ८, २, १०; -णे आपथ्रौ १४,
 ९, ४; हिथ्रौ १०, ८, १०; वैताथ्रौ
 १६, ११; -णेन वाधृथ्रौ ४, ८६ :

१; ९; १६.
 अभि-षोत्- -नृतारः काथ्रौ १०,
 ३, १२; बौथ्रौ; -तृन् बौथ्रौ
 ७, ७ : १७; वैथ्रौ १६, १ : १;
 १० : ७.
 अभि-षोष्यत्- -ष्यन् बौथ्रौ १४,
 ४ : ३६; -ष्यन्तः बौथ्रौ ७,
 ६ : ३.
 अभि-षेक-^५, -षेकृ- प्रभृ. अभि/षिच
 द.
 †अभि/षो(< सो), †अभिव्यक्^६^१
 पाठ ३, १, ३; अभिव्य^६ आपथ्रौ ९,
 ८, ८; बौथ्रौ १३, ४३ : १५; हिथ्रौ
 २०, ७, ३; बौथ्रौ १, ६, १८; हिगृ
 २, १७, ३.
 अभि/षु(< स्त)न् > अभि-षन^१-
 -ने उस् ५, ११.
 †अभिष्टि^१- -ष्टये शांथ्रौ ७, १०,
 १०; आपथ्रौ; -ष्टिः बौथ्रौ १७,
 ४१ : २०^६; -ष्टिभिः आपथ्रौ
 १४, ३३, ६; माथ्रौ; -ष्टीः^६
 भाग्य २, २१ : २०; हिगृ १,
 ११, १; -ष्टेः आम्रिगृ २, १, १ :
 १३; हिगृ २, २, ६.
 अभि/षु(< स्त), अभिष्टौति
 शांथ्रौ ५, ९, ४ XX; काथ्रौ;
 अभिष्टौमि या १०, ५;
 †अभिष्टुहि शांथ्रौ ५, ९, ४;
 काथ्रौ; अभ्यस्तौत् अत्र २, २६;
 ७, २६; ८२; अभ्यष्टुवन् वाधृथ्रौ
 ४, २६^२ : ३; अभिष्टुयान् आथ्रौ

४, ६, १; ५, १२, ७; शांथ्रौ ७-
 १५, १९; वैथ्रौ १३, ८ : ५.
 अभितुष्टाव ऋअ २, ६, ७५; वृदे.
 अभि-ष्टव^१- -वः वृदे १, ३९.
 अभि-ष्टाव्य अप्राय ६, ६.
 अभि-ष्टुत्, ता- -तम् अप ३७,
 १९, ४^१; -ता वृदे ६, ९०.
 अभि-ष्टुत्य शांथ्रौ ५, ९, २५; १०,
 २३; ३२; ७, १५, ४-८.
 अभि-ष्ट्य कौस् १२७, ३; अप.
 अभि/षु(< स्त)भ्, अभिष्टोभेत्
 दाथ्रौ ३, ४, २५; लाथ्रौ १, १२,
 ११; ७, ११, ६^२१; ८.
 †अभिष्टवा^३ कौस् ४९, १०.
 अभि/षु(< स्था), अभितिष्टे^४
 हिथ्रौ २, ४, ४१; अभितिष्टति
 काथ्रौ ६, ६, १०; आपथ्रौ ७, १८,
 १४; १६, ६, ४^१; †हिथ्रौ
 ११, १, ६९; १२, ३, ७; आपगृ
 ६, ९; कौस् ७७, ४; अभितिष्टन्ते
 आपथ्रौ ८, ७, २६; अभितिष्टन्ति
 बौथ्रौ ८, १९ : १६; हिथ्रौ ९,
 ५, २२; कौस् ८४, १५; अभिति-
 ष्टामि पाठ १, ३, ८^१; ३, १५, ३^०;
 भाग्य १, ९, ८^१; अभितिष्ट, > ष्टा
 †आपथ्रौ ३, १५, ५; १६, २, १०;
 बौथ्रौ; अभ्यतिष्टत् वृदे ६, ११०;
 अभितिष्टेत् आपथ्रौ २, १२, ५^०.
 अभि-...तस्यौ वृद ७, ९७;
 †अभ्यस्थात्^१ आपथ्रौ ५, १४,
 १४ XX; बौथ्रौ; अभ्यस्थाम्^१

a) नाप. (इन्द्रसंज्ञा-विशेष-). मत्वर्थीयः इतिः प्र. । b) पाभे. वैप १ परि. अभीषाह्यः काठ ३९, ११ टि. द. । c) षम. । d) विप. (स्तुति-). वस. । e) सप्र. सकृद् अभिपुत्य < > सकृदभिपुतस्य इति पाभे. । f) पाभे. पृ ९४ p द. । g) अविव्यत् (तु. गुज.) इति, यनि. (तु. राजा. प्रभृ.) च पाठो! ष्यत् [तु. पा ८, ३, ६५] इति शोधः । h) पाभे. वैप १ परि. अभिव्याः काठ २, १५ द. । i) भाप. । वैप १ द. । j) वैप १, परि. च द. । k) पाभे. वैप १ परि. २अभिष्टिः खि ४, ६, ४ टि. द. । l) गस. । भाप. । m) पाठः? अनिष्ट्वा इति शोधः (तु. संस्कृतुः टि.) । n) सपा. ष्टेत् < > ष्टेत् इति पाभे. । o) पाभे. वैप १ परि. अथितिष्टति काठ ३८, १२ टि. द. । p) पाभे. पृ ११२ ० द. । q) पाभे. पृ २९६ e द. । r) पाभे. वैप १ परि. अभ्यस्थात् टि. द. ।

माश्रौ १,५,४,११; ६,१,६,१७;
वाश्रौ १,४,३,१९;५,४,११; २,
१,६,९.
अभि-घा^१ - घाम् माश्रौ १, २, ६,
२५^१.
†अभि-ष्ठित- -तः आश्रौ ६,१३,८;
शाश्रौ ८, १०,४; १२, २३, २;
आपश्रौ ८,७,२६; १६, २,१०;
बौश्रौ ८,१९ : १७; वैश्रौ १६,
२४:१२; हिश्रौ ९,५,२२.
अभि√प्य(<स्य)न्द्^०, अभिसि-
प्यदे अप्रा ३,१,७.
अभि-सं√यच्छ (यमने), अभि-
संयच्छेत् गोश्रु १,१,२०.
अभि-सं√यु (मिश्रणे) > अभिसं-
युत्य हिपि २३ : ३१.
अभि-सं√युज् > अभिसं-योग-
-गः मीस् १३, ३,१६; -गात्
मीस् ४, ३, ३८; ६,१,३; ११,
२,६२.
अभि-सं√वर्ण, अभिसंवर्णयति निस्
४,४ : ८.
अभि-सं√वह् > अभिसम्-उह
हिश्रौ १३,३,३६.
अभि-सं√विश, अभिसंविशन्तु
आपश्रौ १३,१६,८; १७,१३,२;
बौश्रौ.
†अभि-सं√व्ये, अभिसंव्ययिष्ये^d
पाश्रु २, ६, २०; माश्रु १, ९,
२७.
अभि-सं√श्रि > अभिसं-श्रित- -तः
बृदे १,४४.
अभि-सं√सद्, अभिसंसीदेत् हिश्रौ
११,५,७.

अभि-सं-सु√कृ > †अभिसं-रकृ(त-
>)ता- -ताम् आपश्रौ १, २, १;
वाश्रौ १, २, १, ४; हिश्रौ १, २,
१२.
अभि-सं√स्तम् > †अभि-स्तम्भ कौस्
५५,१६.
अभि-सं√स्तु, अभिसंस्तौति बृदे
३,४४; ४,१२८.
अभिसं-स्तव- -वः मीस् ४,४,३०.
अभिसं-स्तुत- -तः बृदे २,३४.
अभि-सं√स्था, †अभिसंतिष्ठन्ते या
४, २७^०.
अभि-सं√स्वृ, †अभि (समस्वरन्)
साश्रु १, २५६; २, ९२३; अश्रु
२०,९९.
अभि-सं√ह् > अभिसं-हार्य काश्रु
३,५.
अभि-सं√कल्प् > अभिसं-कल्प-
मान- -नः वाधूश्रौ ४,७५:५;८.
अभि-सं√काम्, अभिसंक्रामति निस्
४,११ : १२.
अभि-सं√ख्या > अभिसं-ख्य- >
ख्य-त्व- -खात् मीस् ६,७,
४१.
अभि-सं√गृ(शब्दे), अभिसंगृणन्तु
कौस् ११५,२^१.
अभि-सं√गृह् > अभिसंगृह्य आश्रौ
१,७,५; गोश्रु.
अभि-सं√चर्, अभिसंचरेत् आमिश्रु
३,७,३ : २; बौपि २,१,१^१.
अभिसं-चरेण्य^१ - -ण्यम् } या १,
अभिसं-चारिन्- -रि } ६०.
अभि-सं√ज्ञा > जा, अभिसंजानते
बौश्रौ १२,१८ : ११; १८,२४ :

२; २६,२ : ७.
अभि-सं-ज्ञा- > अभिसंज्ञित- -तः
अप ५८^२,३,९.
†अभि-सत्त्वन्^१ - -त्वा ऋप्रा ५,२९;
शुप्रा ३,८१; तैप्रा ६,१२.
अभि-सं√धा > अभिसं-दधत्-
-धत् हिश्रौ २१,२,३२.
अभिसं-धान- -नम् बौश्रौ १९,४ :
३५^१.
अभिसं-धाव अप १३, ३, २; गौध
१४,२२.
अभिसं-धि^१ - > अभिसंधि-कृत^१-
-ने वाध २०,२.
अभिसंधि-पूर्वे^१ - -र्वम् आपश्रु १,
२६,७; बौध १,५,११९; ४,२,
१३; हिध १, ७,१८; -र्वं गौध
२५,१०.
अभिसंधि-मात्र- -त्रात् गौध
२८,१९.
अभिसं-धित्वा बौश्रौ २६,१२ : १४.
अभि-सं√नम्, अभिसंनमेत् आश्रौ
९,७,२५; शाश्रौ १,१७,२०^१.
अभिसंनामयन्ति या ४, २७;
११,२३.
अभिसं-नाम- -मात् या ४,२७.
अभि-सं√नह्, अभिसंनहति
आपश्रौ २,५,५^२; कौस् ९०,४;
अभिसंनहोत् बौश्रौ २१, ८:४०;
२५,११ : १०; २३; १४ : १५;
१५:१२; हिश्रौ १,७,१६.
अभि-सम (म्√अ) स् (क्षेपणे),
अभिसमस्येत् माश्रौ १,४,८.
अभि-समा√गच्छ, अभिसमागच्छ-
न्ति या १२,११.

a) भाप. । गस. । b) पाभे. वैप १ विष्ठांस् का १, १०, ५ टि. द्र. । c) पा ८, ३, ७२ परामृष्टः
द्र. । d) पाभे. वैप १ परि. उप...मदेम टि. द्र. । e) अभिः (=अधिः) कप्र.; वैतु. या. प्रभृ. यनि. इति ।
f) अभि संत्वरयेत् इति घ. । g) विप. । गस. । वैप १, ३१९ f द्र. । h) विप. । बस. । i) गस. उप. किः प्र.
(पा ३, ३, ९२) । j) विप. (अपराध-) । तुस. ।

अभि-समा√धा> अभिसमाधाय
हिपि २२ : ३.
अभि-समा√यच्छ् (यमने), अभि-
समायच्छति वाथ्रौ १, २, १, २४.
अभि-समा(म्-आ)रभ् > अभिस-
मा-रम्भ- -रभात् बौथ्रौ २६, ९ :
५.
अभि-समा√वप्, अभिसमावपन्ति
माथ्रौ ८, २२, २; अभिसमावपेयुः
माथ्रौ ८, २२, ३.
अभि-समा√वृत् > अभिसमा-
वर्त्यमान- -नः शांग् १, १, २.
अभि-समा√सिच् > अभिसमा-
सिच्य कौस् ५३, १६.
अभि-समा√ह् > अभिसमाहारम्
आपथ्रौ २, ४, ४; माथ्रौ २, ४,
४; वैथ्रौ ५, २ : १६; हिथ्रौ १५,
५, ३०.
अभिनमा-हृत्य कौस् ५४, १९.
अभिसमि(म्√इ), अभिसमियुः
बौथ्रौ १३, १२ : ४; २६, ५ :
१९; भाशि ११.
अभि-समी(म्√ई)क्ष्, अभिनमी-
क्षेत आपथ्रौ १, २, ११; माथ्रौ
१, ३, ४.
अभि-सम्-ईक्षमाण- -णः आपथ्रौ ८,
१४, ७; १०; १३; १४; बौथ्रौ
२, २ : १६.
अभि-सम्-ईक्ष्य वैथ्रौ १३, १२ : १४;
१५; ऋप्रा १७, २४.
अभिसमूहा अभि-सं√वह् द्र.
अभि-समू(म्√ऊ)ह्(प्रापणे), अभि-
समूहति बौथ्रौ १४, १४ : ३४;
वैथ्रौ २०, ३८ : ९; अभिसमूहामि

वाथ्रौ ३, ३, १, २३१.
अभिसम्-ऊह्य आपथ्रौ ९, १९, १३;
हिपि ९ : ११.
अभि-समे(म्-आ√इ), अभिसमा-
यन्ति आपथ्रौ २, १९, ३६; आपथ्रौ
२२, ५, १०१; लाथ्रौ ८, ६, २६१.
अभि-सं√पद्, अभिसंपद्यते शांथ्रौ
१४, २५, ३; वाधूथ्रौ; अभिसं-
पद्यते वाधूथ्रौ ४, ९८ : ९, १३;
अभिसंपद्यन्ते बौथ्रौ १६, १३ : ९;
अभिसंपद्यते वाधूथ्रौ ३, १२ : १.
अभिसंपादयेत् बौथ्रौ २, १७ :
२४; २०, १७ : ३; २२, ६ : ६;
२६, २४ : ३.
अभिसं-पन्न- -न्नः ऋप्रा १८, ३;
-न्नम् बौथ्रौ २०, ३ : ३५; ३७.
अभिसं√बन्ध् > अभिसं-बन्ध-
-न्धः माथ्रौ ४, १, २; मीस् १,
४, ३XX; -न्धात् वृदे ६, ९१;
मीस् ४, १, ३; ५, १, २४; ६, ३, ३.
अभि-सं√भू, अभिसंभवन्ति या
१४, ८; ९.
†अभिसंबभूव माथ्रौ १, ५, २,
१३^a; अप १^१, १, ६; †अभि-
संबभूवुः आपथ्रौ १६, २९, १;
वैथ्रौ १८, २० : ८; हिथ्रौ ११,
८, २; अभिसंबभूवथुः वाथ्रौ १,
४, २, ४१.
अभि-सं√भृ, अभिसंभरति बौथ्रौ
१, २ : १८; अभिसंभराणि बौथ्रौ
२२, १० : ९.
अभिसं-मनस्^b- > °नस्-काम^c-
-मः अत्र ६, १०२.
अभि-सं√मील् > अभिसंमील्य

वाथ्रौ १, ३, २, २५.
अभि-संमुल्^d- -खाः आपथ्रौ १२, २,
१६; -खानि हिथ्रौ ७, ७, १९^e.
अभि-सव्य^f- -व्यम् वाधूथ्रौ ३, ९० :
३; ६; १०.
अभि√सिध्, अभिसिधेत् बौथ्रौ २०,
२७ : ६.
अभि√स्तृ > अभि-सारि(न् >)णी^g-
-णी ऋत्र १, ९, ४; २, १०, २३;
शुभ्र ५, ६३; अत्र २०, ७३; ऋप्रा
१६, ६६; -ण्यौ ऋत्र २, १०, ५०.
अभि√स्तृज्, अभिस्तृजामि या १०,
३७^h.
अभि-सृष्ट->°ष्ट- का(ल >)लाⁱ-
> °ल-त(म >)मा- -मा
या १२, ७; ८.
अभि√सृप्, अभिसर्पति आपथ्रौ
१०, ९, २; बौथ्रौ ६, ५ : ४;
११, २ : १६; १८, १६ : १३;
अभिसर्पतः ११, २ : १५; अभिसर्प-
न्ति या ७, १९१; अभि...सर्पन्ति
बौथ्रौ ७, ८ : ४; १५, १७ : २६;
†अभिसर्प बौथ्रौ ११, ८ : १; १२,
१३ : १; माथ्रौ २, ४, २, ३८; ५,
३, ७; हिथ्रौ ८, ४, ४८; अभिसर्पेत्
बौथ्रौ २५, ७ : ५.
अभि-सर्पण- -णे बौथ्रौ २१, ९ : ८.
अभि-सृष्य बौथ्रौ १, १३ : २०XX.
?अभिसोमाः निस् ६, ३ : १५.
अभि√स्कन्द् > अभि-स्कन्द्म् अप्रा
३, १, ७१; शौच २, १०४.
अभि√स्तृ, स्तृ, अभिस्तृणाति माथ्रौ
३, १२, २; हिथ्रौ २, ६, ३०;
†अभिस्तृणीहिⁱ आपथ्रौ ३, १३,

a) पाभे. वैप २, ३खं. संबभूवथुः तैत्रा १, २, १, २ टि. द्र. । b) प्रास. । c) विप. । बस. । d) विप. ।
'अभिसंगतं मुखं यस्य' इति बस. । e) सपा. अभिसंमुखानि <> अभ्यग्राणि इति पाभे. । f) अत्र. वा. किवि. ।
g) नाप. (त्रिष्टुप्छन्दोविशेष-) । h) वै १, ३१७ j द्र. । i) विप. (सूर्या- वृत्राकपायी-) । बस. । j) पाभे-
वैप १ परिस्तृणीहि शौ ७, ९९, १ टि. द्र. ।

५; आश्रौ ३, १२, ३; हिथ्रौ २, ६, ३०; अभिस्तृणीयात् आपश्रौ ११, १५, ५.	१३; हिध २, ५, १४३.	अभिस्तृणीयात् आश्रौ १, १२, ३७; २, ३, १६; काश्रौ; अभिस्तृणुः दाश्रौ १२, २, २१; लाश्रौ ४, १०, २२.
अभि-स्तृण्ये आपश्रौ ३, १३, ५.	अभि-हृत्- -त्तः निस् ७, ११ : १२; अप ३५, २, ९; पाशि ९; -तम् हिथ्रौ १, ६, ३; -तस्य वृदे ७, ८४; -ताः चव्यू ३ : २; -ते अप ५६, १, २; ३; ७.	अभि-हृत्- -हृत् भाश्रौ ७, १५, ९.
अभि/स्फूर्ज्, अभिस्फूर्जति शौच २, १०२१.	अभि-हृत्- -त्तः काश्रौ ९, १३, २९; या ७, २४; -तम् आपश्रौ १७, २०, ७; या ७, २५; -ताः वैश्रौ १५, ६ : ७; -तानाम् आपश्रौ १२, ५, १०; -तायाम् दाश्रौ २, ३, ७; लाश्रौ १, ७, ७; -ते दाश्रौ १४, १, ११; लाश्रौ ५, ५, ८; -तौ हिथ्रौ ३, ६, ५.	अभि-हृत्, ता- -त्तः काश्रौ ९, १३, २९; या ७, २४; -तम् आपश्रौ १७, २०, ७; या ७, २५; -ताः वैश्रौ १५, ६ : ७; -तानाम् आपश्रौ १२, ५, १०; -तायाम् दाश्रौ २, ३, ७; लाश्रौ १, ७, ७; -ते दाश्रौ १४, १, ११; लाश्रौ ५, ५, ८; -तौ हिथ्रौ ३, ६, ५.
अभि/स्यन्द, अभिस्यन्देरन् आश्रु ४, ५, ७.	अभि-हृत्- -त्तः आशि ८, ७.	अभि-हृत्, ता- -त्तः काश्रौ ९, १३, २९; या ७, २४; -तम् आपश्रौ १७, २०, ७; या ७, २५; -ताः वैश्रौ १५, ६ : ७; -तानाम् आपश्रौ १२, ५, १०; -तायाम् दाश्रौ २, ३, ७; लाश्रौ १, ७, ७; -ते दाश्रौ १४, १, ११; लाश्रौ ५, ५, ८; -तौ हिथ्रौ ३, ६, ५.
†अभि/स्रु, अभिस्रवन्तु आपश्रौ ५, ४, १; बौश्रौ; माश्रौ ६, १, ५, २२ ^b ×.	अभि-हृत्- -त्तः आशि ८, ७.	अभि-हृत्, ता- -त्तः काश्रौ ९, १३, २९; या ७, २४; -तम् आपश्रौ १७, २०, ७; या ७, २५; -ताः वैश्रौ १५, ६ : ७; -तानाम् आपश्रौ १२, ५, १०; -तायाम् दाश्रौ २, ३, ७; लाश्रौ १, ७, ७; -ते दाश्रौ १४, १, ११; लाश्रौ ५, ५, ८; -तौ हिथ्रौ ३, ६, ५.
†अभि/स्वृ, अभिस्वरन्ति या ३, १२०; शौच २, १०२; अभिस्वर शाश्रौ १८, १८, २; या ६, २१.	अभि-हृत्- -त्तः आशि ८, ७.	अभि-हृत्, ता- -त्तः काश्रौ ९, १३, २९; या ७, २४; -तम् आपश्रौ १७, २०, ७; या ७, २५; -ताः वैश्रौ १५, ६ : ७; -तानाम् आपश्रौ १२, ५, १०; -तायाम् दाश्रौ २, ३, ७; लाश्रौ १, ७, ७; -ते दाश्रौ १४, १, ११; लाश्रौ ५, ५, ८; -तौ हिथ्रौ ३, ६, ५.
अभि-स्वर ^c - -स्वरा ऋप्रा ५, २४१.	अभि-हृत्- -त्तः आशि ८, ७.	अभि-हृत्, ता- -त्तः काश्रौ ९, १३, २९; या ७, २४; -तम् आपश्रौ १७, २०, ७; या ७, २५; -ताः वैश्रौ १५, ६ : ७; -तानाम् आपश्रौ १२, ५, १०; -तायाम् दाश्रौ २, ३, ७; लाश्रौ १, ७, ७; -ते दाश्रौ १४, १, ११; लाश्रौ ५, ५, ८; -तौ हिथ्रौ ३, ६, ५.
अभि/हृन्, अभिहृन्ति माश्रौ १, २, ४, २६; ७, ३, १६; या ७, २३; आशि ८, १; ७; अभिहृन्ते आपश्रौ ८, ११, १२; भाश्रौ ८, १२, २३; अभिहृन्ति आपश्रौ १८, ५, १८; अभिजहि जैग १, २० : १६; अभिहृन्त्यात् अप ५६, १, २-१०; वाध ६, ३६; शंघ ८७; ९९.	अभि-हृत्- -त्तः आशि ८, ७.	अभि-हृत्, ता- -त्तः काश्रौ ९, १३, २९; या ७, २४; -तम् आपश्रौ १७, २०, ७; या ७, २५; -ताः वैश्रौ १५, ६ : ७; -तानाम् आपश्रौ १२, ५, १०; -तायाम् दाश्रौ २, ३, ७; लाश्रौ १, ७, ७; -ते दाश्रौ १४, १, ११; लाश्रौ ५, ५, ८; -तौ हिथ्रौ ३, ६, ५.
अभि (जघन्थ) शुप्रा ३, ९९.	अभि-हृत्- -त्तः आशि ८, ७.	अभि-हृत्, ता- -त्तः काश्रौ ९, १३, २९; या ७, २४; -तम् आपश्रौ १७, २०, ७; या ७, २५; -ताः वैश्रौ १५, ६ : ७; -तानाम् आपश्रौ १२, ५, १०; -तायाम् दाश्रौ २, ३, ७; लाश्रौ १, ७, ७; -ते दाश्रौ १४, १, ११; लाश्रौ ५, ५, ८; -तौ हिथ्रौ ३, ६, ५.
अभिजिघांसति या ५, २; अभि (जिघांसति) आश्रौ २, १८, ३१.	अभि-हृत्- -त्तः आशि ८, ७.	अभि-हृत्, ता- -त्तः काश्रौ ९, १३, २९; या ७, २४; -तम् आपश्रौ १७, २०, ७; या ७, २५; -ताः वैश्रौ १५, ६ : ७; -तानाम् आपश्रौ १२, ५, १०; -तायाम् दाश्रौ २, ३, ७; लाश्रौ १, ७, ७; -ते दाश्रौ १४, १, ११; लाश्रौ ५, ५, ८; -तौ हिथ्रौ ३, ६, ५.
अभि-घात- -त्तः बौग ४, २, ६; -तान् वृदे ७, ८८; -ताय अप ५९, १, २०.	अभि-हृत्- -त्तः आशि ८, ७.	अभि-हृत्, ता- -त्तः काश्रौ ९, १३, २९; या ७, २४; -तम् आपश्रौ १७, २०, ७; या ७, २५; -ताः वैश्रौ १५, ६ : ७; -तानाम् आपश्रौ १२, ५, १०; -तायाम् दाश्रौ २, ३, ७; लाश्रौ १, ७, ७; -ते दाश्रौ १४, १, ११; लाश्रौ ५, ५, ८; -तौ हिथ्रौ ३, ६, ५.
अभि-घातम् आश्रिग ३, ८, १ : १९; अभिघातम्ऽअभिघातम् बौपि १, १४ : १७.	अभि-हृत्- -त्तः आशि ८, ७.	अभि-हृत्, ता- -त्तः काश्रौ ९, १३, २९; या ७, २४; -तम् आपश्रौ १७, २०, ७; या ७, २५; -ताः वैश्रौ १५, ६ : ७; -तानाम् आपश्रौ १२, ५, १०; -तायाम् दाश्रौ २, ३, ७; लाश्रौ १, ७, ७; -ते दाश्रौ १४, १, ११; लाश्रौ ५, ५, ८; -तौ हिथ्रौ ३, ६, ५.
अभि-घ्नत्- -घ्नन् आपध २, २२,	अभि-हृत्- -त्तः आशि ८, ७.	अभि-हृत्, ता- -त्तः काश्रौ ९, १३, २९; या ७, २४; -तम् आपश्रौ १७, २०, ७; या ७, २५; -ताः वैश्रौ १५, ६ : ७; -तानाम् आपश्रौ १२, ५, १०; -तायाम् दाश्रौ २, ३, ७; लाश्रौ १, ७, ७; -ते दाश्रौ १४, १, ११; लाश्रौ ५, ५, ८; -तौ हिथ्रौ ३, ६, ५.

a) तु. पा ८, ३, ७२ । b) वैतु. BC. अभिभ्र^o इति? । c) वैप १, परि. च द्र. । d) पाभे. पृ २६३ d द्र. । e) दस. । f) 'हृन् इति पाठः? यनि. शोधः । g) विप. (अश्वत्थ-मणि-). कस. । h) पाठः? (तु. संस्कृतुः टि.). । i) भाप. (अभि-हृत्-). गस. । j) = होम-शेष- । षस. ।

अभि/ह, अभिहरते भाग्य १, १० :
 १२; अभिहरन्ति बौध् १५,
 १९ : ११; वाधूथौ ३, ८१ :
 २^{१०}; आमिग्य ३, ११, १ : ७;
 कौसू ८०, १६; अभि...हरन्ति
 बौध् १६, २९ : १०; †अभिहरे
 जैग्य १, १८ : ८; १०; १२;
 †अभिहराणि आपथौ ४, २, १;
 माथौ ४, २, ५; हिथौ १, २, ५;
 अभिहरेत् द्राथौ १०, २, ६; लाथौ
 ३, १०, ६.
 अभि-हरत्- -रन्तम् द्राथौ १०, २,
 ७; लाथौ ३, १०, ६.
 अभि-हार्य(>)र्या- -र्याभिः बौध् १
 १५, १ : ८.
 अभि-हृत- -तम् आपथ १, ८, ७;
 हिघ १, २, ९५.
 अभिहृत-तर- -राणि आपथौ
 २, ९, १४; -रेण आथौ १, १,
 २३.
 अभि-हृत्य आपथौ २, १३, ४; वाथौ
 १, ५, २, २६; हिथौ २, १, १२.
 अभि-हियमाण,णा- -णः अप्राय ३,
 १†^b; -णासु अप्राय ३, २.
 अभि/ह (< घ्), †अभिजिहर्ति
 आपथौ ४, ७, २^c; भाथौ ४, ११,
 १^d; हिथौ ६, २, १७^e; आमिग्य
 ३, ४, ४ : ८; बौपि ३, ४, १४; १५.
 अभि/ह्ने, अभिहवामहै वाधूथौ ४,
 ३६ : ४^d.
 अभिह्वयामि या ५, ७.

अभि-हव- पा ३, ३, ७२; -वात्
 माथौ १, ५, १, १५.
 अभि-हृति- -तौ या ५, २८.
 अभी(भि/इ), अभ्यायत वाधूथौ ४,
 ३० : ६.
 अभ्येति शांथौ २, ११, ६; १२, ३;
 आपथौ; हिथौ ६, ७, ८^२†^{XX};
 या ४, ५; †अभि...एति अग्र
 १३, २; या ११, ४६^f; अग्रा
 १, १, १५; (अभि)एति या ३,
 २०†¹; अभियन्ति वाथौ २, १,
 १, ७; लाथौ ९, २, २†; अभ्येमि
 माथौ २, ४, ५, ६†; †अभियन्तु
 आपथं २, २१, १५; भाग्य २,
 २६ : ४; हिग्य १, १२, ६;
 अभि...एत् वाधूथौ ४, ३२ :
 ३^{XX}; अभीयात् अप्राय ६, ७.
 अभीत्व(भि-इत्वर >)री^g- -री
 आपथौ १०, १९, ३; २०, ७, १६;
 २२, २१, ७; माथौ १०, १२, ११;
 -†रीः आपथौ १, १२, १; ६,
 ५, ६; ६, १०; बौध् १०, १४ :
 २; माथौ १, ६, १, १५; २२;
 वाथौ १, ५, २, १७; २१; -रीम्
 आथौ ५, ७, ३; शांथौ ७, ६,
 ३; हिथौ १७, ७, २९; -†र्या
 आथौ ५, ७, ३; शांथौ ७, ६,
 ३^h; -†र्यै आपथौ १, २४, ६;
 वौथौ १, १४ : ६; माथौ १, २५,
 १०; २, १०, ३; माथौ १, २, ३,
 १९; ६, १७; हिथौ १, ६, ३७;

८, २०.
 अभी(भि/ई), †अभी(ईमहे) आथौ
 २, १६, २^{XX}; शांथौ.
 १अभीक- अभिक- द.
 †२अभीक^h- -के आथौ ६, १२, २;
 अप ४८, ११७; निघ २, १७; ३,
 २९; या ३, २०^f.
 अभीक¹- -कम् शांथौ १३, ५, १४;
 काथौ २५, १४, १४; जुसू १, ११ :
 १७; २, ३; १६; निसू ७, ७; २०.
 अभीक्षण¹- पाग १, १, ३७; ५, १,
 १२४; -क्षणम् शांथौ १, १७, ७;
 लाथौ १०, १०, १४; अप ६४,
 ७, ४^h; या २, २५; -क्षणाः¹ अप
 ६४, ३, १०.
 अभीक्षण्य- पाग ५, १,
 १२४; -क्षण्ये पा ३, २, ८१; ४,
 २२; पावा २, १, ७२; ८, १, १२.
 अभीक्षण-परिवेष^m- -वाः अप ६४,
 ४, ५.
 अभीक्षण-शस (:) माशि १२, ७.
 अभीचारानुवाहार- अभि/चर्
 द.
 अभी(भि-इ)ज्या- अभि/यज् द.
 अभी (भि/इ) घ्, न्घ्, अभीन्धे शौच
 ३, ६५; अभीन्धते बौध् १, ८ :
 २०; ५, १ : २३; द्राथौ २, २,
 २७; लाथौ १, ६, २५; अभीन्ध-
 ताम् माशि ७, ४†.
 अभी(भि-इ)द्ध, द्धा^h- -द्धः या ११,
 ४३†; -द्वात् भाग्य ३, ९ : २;

a) अविहरन्ति इति पाठः? यनि. शोधः । b) पाभे. वैप १ परि. उपावहियमाणः तै ४, ४, ९, १ टि. द्र. ।
 c) सप्र. अभिजिहर्ति < > विदधाति इति पाभे. । d) ... अभिहवामहै इति नुटितः पाठः? यनि. शोधः । e) पाभे.
 वैप १ परि. अध्येति मा ३, ४२ टि. द्र. । f) पाभे. वैप १ परि. अभि...एति ऋ ७, १०४, २१ टि. द्र. । g) वैप
 १, परि. च द्र. । h) र्याः इति पाठः? यनि. शोधः (तु. आथौ., शांत्रा २८, ६ च) । i) नाप. (साम-विशेष-) ।
 मत्वर्थायः अण् प्र. उसं. (पा ५, २, ६१) । j) विप. व्यु. ? । < अभी-क्षण- (क्षणम् अभिव्याप्त- इति प्राप्त.) इति
 या. । -क्षणम् इति पौनःपुन्य-पर्याय इति अस. वा. किवि. । k) आ^h इति पाठः? यनि. शोधः (तु. संस्कृतः टि.) ।
 l) विप. (मास्त-) । m) कस. ।

-हाम् माश्रौ ६, १, २, १८.
 अमी(भि-इ)न्धिष्यत्- -व्यसु द्राश्रौ
 १४, २, १२; लाश्रौ ५, ७, १०.
अमी-नाम- अभि/नम् द.
अमीपाद्^a- -द्: सात्र १, २३१.
अमीप्सन्ती- अमीप्सित- अभ्या-
 (भि/आ)प् द.
अमीयक्षत्- अभि/यज् द.
अमीरुण^b- -णम् आपश्रौ ७, २१,
 ६; वौश्रौ ४, ७ : २४; भाश्रौ ७,
 १६, १३; हिश्रौ ४, ४, ४४; जैश्रौ
 १२ : ७; द्राश्रौ ४, २, २; लाश्रौ
 २, २, ११; अप्रा ३, ४, १.
१, २ अमीवर्त- अभि/वृत् द.
अमीवार^c (भि-इव/अर्), ?अमी-
 वार^d अप्रा २, ३, १९१.
अमी-वृत्- अभि/वृ (आच्छादने) द.
अमी(भि/ई)घ्^e > १अमी(भि-ई)
 घृ- -शवः अप ४८, ८२;
 ११३; वृदे १, ११०; निघ १,
 ५; २, ५; ५, ३; या ३, ९६; ९,
 १५; -शुना अप्रा ३, ४, १; वौश्रौ
 २०, १२ : १६^f; अप ४८, ८१०;
 निघ २, ४०; -शून् द्राश्रौ ५, ४,
 १२; लाश्रौ २, ८, १२; उम् ५,
 ५१; -शूनाम् या ९, १६१.
२अमीशु^g- -शुः सात्र १, २१०.
आमीशव^h- -वम् शाश्रौ १३, ५,
 १४; द्राश्रौ ९, ३, १०; लाश्रौ ३,
 ६, ३०; निस् ३, १० : २, ५, २ :
 २७, ९, १२ : १७; -वयोः लाश्रौ
 ६, १०, ६; -वानि काश्रौ २५,
 १४, १४; -ये लाश्रौ ७, ४, १.

आमीशव-प्रभृति- -तीनाम्
 लाश्रौ ७, ४, ११.
अमी(भि/ई)घ् (इच्छायाम्)
 २अमी(भि-इ)घ्, षा- -ष्टम् कप्र ३,
 २, १५; शंघ ४४१; -षाः द्राश्रौ
 ११, ३, १७; -ष्टाम् अप ३०ⁱ,
 २, ७; ३६, ३, १; विध ७८, ५;
 वैध ३, १०, ८.
अमी-वङ्ग- अभि/वज् द.
अमीषाह^j, -षाहिन्- अभि/षह
 द.
१अमीष्ट, षा- अभि/यज् द.
२अमीष्ट, षा- अमी(भि/ई)घ् द.
अमीष्णात्^k आपश्रौ १९, २, १९.
अ-भुक्त्वा गोष्ट ४, ५, २३; ९, १; कौस
 १३९, २२; गौध १८, ३२; शंघ
 ४४४.
अ-भुजिष्य^l- -ष्यः शाश्रौ १२, २०,
 ४१.
अ-भुज्य- -ज्यम् निम् २, १३ : ११.
अ-भुञ्जत्- -ञ्जति कौष्ट ३, ९, ४४^m.
अ-भुञ्जान- -नः विध ५, ९६; गौध
 २३, २१; -ने शांघ ४, ७, ५०ⁿ;
 -नौ अप्राय ४, ४.
अ-भूगत- -तम् अप ३८, १, ४.
अ-भूत- -तम् या १, ६^o; -ताः वौश्रौ
 १८, २५ : १७; -तानाम् अप
 ६४, ४, ७.
अभूत-तद्-भाव- -वे पावा ५, ४,
 ५०.
अभूततद्भाव ग्रहण- -णम् पावा
 ३, १, १२; ५, ४, ५०.
अ-भूत-पूर्व- -र्वे पावा १, १, ५६.

अ-भूति^p- -तिः अत्र १२, ५; -स्त्री
 काश्रौ २५, ११, २१; वौश्रौ
 २८, ९ : २०.
अ-भूमि^q- -मौ काश्रौ ६, ८, ३.
अ-भूमिगत- -तान् वाग् ४, १३.
अ-भूमि-स्पृष्ट- -ष्टे जैष्ट १, ११ : १९.
अ-भृष्ट- -ष्टम् कौस २२, २.
अ-भेद्^r- -देन काश्रौ १३, ४, २२.
अभोक्ता^s वैष्ट ५, २ : ३.
अ-भोक्ष्यत्- -क्ष्यन् आश्रौ ३, ११, ३;
 वैष्ट ६, १७ : ९.
अ-भोजन^t- -नम् काश्रौ १४, ५,
 २२; १७, ३, ७; २५, ४, ५; गोष्ट
 ३, २, ९; कप्र ३, ८, ९; वाध २३,
 २७; शंघ ३९६; ४२५; ४२९;
 ४६१; आपध १, २६, ४; २, १५,
 ५; १७, २४; वौध ४, ५, १५;
 विध ५४, २९; हिध १, ७, १५;
 २, ३, ३५; ५, ५६; गौध २३,
 २४; -नेन लाश्रौ ८, ८, ४०;
 गोष्ट १, ९, १९; द्राष्ट २, २, ९.
अ-भोजनीय, या- -यम् आपश्रौ ९,
 १५, १७; भाश्रौ ९, १८, ४;
 हिश्रौ १५, ४, ३७; -यस्य
 आपश्रौ ९, ३, १३; भाश्रौ ९,
 ५, २; हिश्रौ १५, १, ६१; -याः
 आपश्रौ ९, ३, १२; भाश्रौ ९,
 ५, २; हिश्रौ १५, १, ६०.
अ-भोज्य- -ज्यम् वैश्रौ ११, ११ :
 १२; आप्रिष्ट २, ६, २ : १९१;
 वाध १४, २; २०; शंघ १५४,
 ४२४; आपध १, ४, १२; १६,
 १६; २१; २२; १७, २८^u; १८,

a) व्यप. (उदलाऽपत्य-)। व्यु. ?। b) वैप १ द.। c) वैप १, परि. च द.। d) अमीघृ इति पाठः ? यनि. शोघः (तु. संस्कर्तुः टि.)। e) नाप. (बाहु-)। f) व्यप. (आङ्गिरस-)। व्यु. ?। g) नाप. (साम-विशेष-)। h) वैप २, ३३६. द.। i) तु. वैप १, ३७१ f, g, h; परि. च। j) सपा. °ञ्जति <> °ञ्जाने इति पामे.। k) तम.। l) पामे. वैप १ परि. अभूत्याः शौ ७, १०५, १ टि. द.। m) पाठः ? अमेत्ता इति U. शोघः ? (तु. मूत्रो.)।

१०; १६; २७, ३; वीध २, ५, ११; हिध १, १, १३१; ५, १५; २०; २१; ६०; ७९; ८५; ११६; ७, २८; गीध १७, ८; २४, ३; सुध ६१; सुधप ८८ : ४; मीस् ६, ५, ४८; -ज्यस्य माथ्रौ ५, १, ५, ३७; मागृ १, ३, ४; -ज्याः विध ५७, ५; -ज्यात् वीध १, ५, ५५; -ज्यानाम् वीध ४, २, ५; -ज्यानि सुध ५९.

अभोज्य-भोजन^a - ने वीध ४, ६, ७; गीध २३, २३.

अभोज्य-भोज्य-संज्ञक^b - के वाध २७, १०.

१ अभोज्या (ज्य-अ) ङ^c - > ङ्ना- (न-अ) भक्ष्य-भक्षण^d - णम् विध ३७, ७.

अभोज्याङ्गा (न-अ) भक्ष्य (द्वय-आ) शिन् - ङी विध ४४, ११.

२ अभोज्या (ज्य-अ) ङ^e - ङः वैध ३, १३, ११; १४, ५; -ङस्य वीध ४, २, ५.

अभोज्या (ज्य-अ) भक्ष्य-शृङ्गाङ्ग-भक्षण^d - णे अप ३८, ३, ४.

अ-भौजिण्य^f - न्यात् सु १२, २.

अभ्य (मि-अ) ञ्र, प्रा^g - ञ्रः आपथ्रौ १३, १५, १२; -अम्^h शांथ्रौ ८, ७, २०; १४, ४०, १७; आपथ्रौ २, ९, ६; माथ्रौ २, ९, ४; माथ्रौ २, ५, २, २३; वैथ्रौ ५, ६ : १२; हिथ्रौ १, ८, ७; -प्राः वीथ्रौ ३, २८ : २०; हिथ्रौ ७, ७, १३; -प्राणिⁱ आपथ्रौ ११, १०, १०; वैथ्रौ १४, ११ : ८; -प्रायाम्

आपथ्र १, ११, २५; हिध १, ३, ७५; -मे वाथ्रौ १, ३, २, १३; वैथ्रौ १६, १९ : २.

† अभ्य (मि-अ) घाय (< अघ-), अभ्यघायन्ति अप्रा ३, १, ७^j; शौच ४, ९६.

‡ अभ्यङ्गता^k अप ६४, ३, ३.

अभ्य (मि-अ) ङ्, ङ्ङ्, अभ्यङ्गेत् गोय २, ४, ३.

अभ्यङ्क्ते काथ्रौ ७, २, ३०;

आपथ्रौ; अभ्यनक्ति वीथ्रौ ६,

२ : १४××; माथ्रौ; हिथ्रौ ११,

७, ४१; अभ्यङ्गते आपथ्रौ ८,

११, १३; वीथ्रौ; अभि...अङ्गते

आपथ्रौ २३, ७, ८; हिथ्रौ १८,

३, ३; अभ्यङ्गन्ति काथ्रौ २०,

५, १५; आपथ्रौ २०, १५,

१२; वाथ्रौ ३, ४, ३, ४४;

मागृ १, १२, ३; † अभ्यङ्गताम्

आपथ्रौ १, ९, १७; वीथ्रौ ३, ११:

३; † अभ्यङ्क्व आपथ्रौ २, ७, ५;

आपथ्रौ; अभ्यङ्गीत वीथ्रौ २१,

८ : ९××; हिथ्रौ; अभ्यङ्ग्यात्

वाध ५, ७; अभ्यङ्गीरन् आपथ्रौ

११, ६, ३; लाथ्रौ १०, ४, ११.

अभ्यङ्गयेत् अप १८, ३, ३.

अभ्य (मि-अ) ङ्क, ङ्का - ङ्कः आपथ्रौ

१५, २१, ८; माथ्रौ; -ङ्कम् शांथ्रौ

४, १५, ५; १६, ३; वाथ्रौ; -ङ्काकौस्

३९, १८; या ६, १५^k; -ङ्काः

आपथ्रौ १९, ११, ३××; वीथ्रौ;

-ङ्काम् विध ६९, १३; -ङ्के या

३, २०; -ङ्केन मागृ १, २२, २.

अभ्यङ्क-शिरस्^l - रसम् वागृ

५, ६.

अभ्य (मि-अ) ङ्क^m - ङ्कः अप ६८, ५, ११.

अभ्यङ्क-पूर्वक - क्रम् शोध १००.

अभ्य (मि-अ) ज्य शांथ्रौ ४, १५, २२;

आपथ्रौ २, ११, ४; १६, २५,

१ⁿ; काठथ्रौ.

अभ्य (मि-अ) ज्यमान - नः वैताथ्रौ

११, ९; -नम् वैताथ्रौ १०, ४;

२९, १; -नान् वैथ्रौ ७, ५ : १०.

अभ्य (मि-अ) ङ्ङत् - ङ्ङन् भागृ

१, १० : ६.

† अभ्य (मि-अ) ङ्ङन^o - नः वीथ्रौ

१८, ४८ : २१ⁿ; -नम् आपथ्रौ

१, ८, २××; वीथ्रौ; -नस्य माथ्रौ

१, १, २, २९; -नात् या ३, ८;

-ने वीथ्रौ २१, ८ : ७; कौगृ ३,

९, ४०; शांथ्रौ ४, ७, ४६; -नेन

वाथ्रौ १, २, ३, २६.

अभ्यङ्गन-प्रभृति - ति काथ्रौ

८, ८, १७; २०, ४, ८.

अभ्यङ्गन-हताविक-पल्पुङ्गि^p -

-तानि शांथ्रौ ३, ८, १२.

अभ्यङ्गना (न-आ) कुट्ट-वान्त-

श्रम-दुःस्वप्नदर्शन^q - नेषु शोध

४७.

अभ्यङ्गना (न-आ) ङ्ङन^o - ने

आथ्रौ २, ७, ५.

अभ्यङ्गना (न-आ) दि - दि

काथ्रौ ७, ३, ११.

अभ्य (मि-अ) ङ्त् > अभ्य (मि-अ)

तित - तः या ४, ५.

अभ्य (मि-अ) ति ✓ क्रम्, अभ्यति-

क्रामति वाध्रौ ४, १६ : १६.

a) षस. । b) विप. । द्रस. > बस. । c) कस. । d) द्रस. > षस. । e) विप. । बस. । f)

तस. उप. भाप. < भुजिण्य- । g) वा. क्वि. । h) पाभे. पृ ३१७० द्र. । i) पाठः? अ-व्यङ्गता इति

संस्कृतः शोध-प्रस्तावः । j) सप्र. अभ्यनक्ति <> अभ्यज्य इति पाभे. । k) = अभ्यक् लु. वैप १ ✓^m भ्यक्ष । l)

l) भाप. । m) वैप १, परि. च द्र. । n) नाप. (एकाह-विशेष-) । o) द्रस. ।

अभ्यति-क्रान्त- -न्तानि बौध्रौ २४,
३१:१०.
अभ्य(भि-अ)ति-नि/नी, अभ्यति-
नियति कौस् ४९, २३.
अभ्य(भि-अ)ति/नी, अभ्यतिनयति
कौस् ४१, २१.
अभ्य(भि-अ)ति/रिच्, अभ्यति-
रिच्यते काश्रौ २५, १३, १६;
बौध्रौ १४, २५:१२; २०; अभ्य-
तिरिच्येत भाश्रौ १०, १३, ४;
अभ्यतिरिच्येरन् बौध्रौ २६, ९:
१५.
अभ्यती(भि-अति/इ), अभ्यती-
यात् वाध्रौ ४, १२:१.
अभ्यती(ति-इ)त^०- -तेषु विध ५७,
१५.
अभ्य(भि-अ)न्यू(ति/ऊ)ह, अभ्य-
न्यूहति माश्रौ ५, १, ९, २२^b.
अभ्य(भि-अ)धिक, का^०- -कम् विध
५, १३; ८१; -का: कागु ४४:
९; -कै: अप ६३, ३, १.
अभ्य(भि-अ)धि/मन्, अभ्यधि-
मन्यते आपध १, १९, १३; हिध
१, ५, ११५.
अभ्य(भि-अ)धि/मृश > अभ्यधि-
मृश्य आपध १, ५, २१^d.
अभ्य(भि-अ)ध्व^०- -ध्वम् काश्रौ २४,
५, ३५.
अभ्य(भि/अ)न् (प्राणने), अभ्यनिति
जैश्रौ १७:१४.
अभ्य(भि-अ)न्य शाश्रौ १७, १५,
१३; १६, ६; ८; १७, २.

अभ्य(भि-अ)नु/ज्ञा > अभ्यनु-ज्ञा-
-ज्ञा ऋप्रा १५, ११; -ज्ञायाम्
आगु ४, ७, २१.
अभ्यनु-ज्ञात- -त: आमिगु ३, १२,
१:२१; बौगु २, ११, २५;
४५; बौपि २, ९, १७; ११, ६;
-तस्य बौगु ४, १२, १.
अभ्यनु-ज्ञेय- -यम् बौगु २, ११,
४४.
अभ्य(भि-अ)न्त^०- -न्तम् वैश्रौ १७,
१५:२.
अभ्य(भि-अ)न्तर, रा^०- -रम् आपध्रौ
२, ५, ४; ७, ३, १४XX; भाश्रौ;
-रा: वाश्रौ १, १, ९, १४; -राणि
द्राश्रौ ३, २, २; लाश्रौ १, १०,
१; बौध १, ७, ८; -रायाम्
बौश्रौ १९, ३: ६; १२; १७; २३;
२६; २९; ३२; ३५; ९:४;
५; -रे माश्रौ ५, २, १५, ६^f;
आमिगु २, ४, १:१०; मागु
१, ९, ३०; -रेण अप ७१, ५, २.
आभ्यन्तर- -र: आशि ३, २; ३.
अभ्यन्तर-तस (:) वाश्रौ ३, २, ५,
३८; पागु १, ११, १; ३, ४, ५;
अप ६५, १, ६.
अभ्यन्तर-विशे (प >) वा^०- -वे
आपशु २०, ६; हिशु ६, ४६.
अभ्यपा(भि-अप/अ)न् (प्राणने),
अभ्यपान्यात् आश्रौ ५, २, २.
अभ्यपा(प-अ)न्य आपध्रौ ६, २६,
५^f; हिश्रौ ६, ७, ७^g; कौगु १,
१६, २^h.

अभ्य(भि/अ)म् (गत्यादिषु), अभ्य-
मीति बौश्रौ १५, ६:१.
१अभ्य(भि-अ)मन > न-वत्-
-वान् या ६, १२.
अभ्य(भि-अ)मिन्- पा ३, २, १५७.
अभ्य(भि/अ)म्(रोगे) > २अभ्य(भि-
अ)मन^१- -नेन या ६, १२.
अभ्यमन-हन्- -हा या १०, १७.
!अभ्यमंस्थात्^१ बौश्रौ २४, १२:७.
अभ्य(भि-अ)मित^१- -त: या ६, १६;
२३.
अभ्य (भि-अ) मित्र^१- -त्रात्,
श्रीण-, श्रीय-, च्य- पा ५,
२, १७.
अभ्य(भि-अ)य- अमी(भि/इ) द्र.
अभ्य(भि/अ)र्च, अभ्यर्चयति आमिगु
२, ५, १:३९; बौगु ३, ११, २;
वैगु ४, ४:६, ५, २:२४; अभ्य-
र्चयेत् वाध ९, ७; विध ६५, १.
अभ्य(भि-अ)र्चत्- -र्चन्त: वाश्रौ ३,
२, ५, ३४; ३५.
अभ्य(भि-अ)र्चन- -नानि बौगु ३,
७, २९.
अभ्य(भि-अ)र्च्य आमिगु १, ७, १:
९XX; बौगु.
अभ्यर्ण^m पा ७, २, २५.
अभ्य(भि/अ)र्ध^० > १अभ्यर्ध- >
†र्ध-यज्वन्ⁿ- -ज्वा निघ ४, ३;
या ६, ६७.
अभ्य(भि अ)र्धयन्- -यन् या ६, ६.
२अभ्य(भि-अ)र्ध^०- -र्धात् बौश्रौ ११,
५:१७; १४, १४:२३; २०,

a) विप. (गुह-). b) सप्र. आपध्रौ १९, २२, १४ हिश्रौ २२, ४, १७ गमयेत् इति पाभे. । c) विप. ।
प्रास. । d) पाभे. पृ ३०५ । द्र. । e) अप. वा. क्वि. । f) वा. क्वि. । g) विप. । बस. । h) सप्र.
शांग १, २४, २ अभ्यवान्य इति पाभे. । i) =अमीव, वा- । j) पाठ: ? अभ्य(भि-अ)म- [विप.] > -मम् [वा.
क्वि.] स्थात् (=अस्थात्) इति द्वि-पद: शोध: । k) =अनभिहिंसित- । प्रास. उप. अ-मित- < √मि [हिंसा-
याम्.] इति । l) अप. । m) =आसन्न- । <अभ्य(भि/अ)र् इति (तु. वैप १, ३९७ p, ४ थ:) । पाप्र. <अभ्य
(भि/अ)र् इति । n) वैप १, परि. च द्र. । o) प्रास. वा. क्वि. ।

२ : ३०; ३३; २२, ११ : १३;
-र्धात्^a बौश्रौ १८, ४० : २०.
अभ्य(भि-अ)व^{र्ह} > अभ्य(भि-अ)
र्हित- -तम् पावा २, २, ३४.
अभ्य(भि-अ)वकाश^b- -शो कौस्
४६, ५५^c.
अभ्य(भि-अ)व^{क्रम}, अभ्यवक्रा-
मेयुः बौश्रौ २१, १५ : २६.
अभ्यव-क्रामत्- -मन्तम् वैश्रौ १८,
१६ : ३३.
अभ्य(भि-अ)व^{गाह}, अभ्यवगाह-
न्ति^d हिश्रौ १४, १, ३०; ३,
४०.
अभ्यवगाहयन्ति आपश्रौ २०,
३, १०^e.
अभ्यव-गाहिन्^d - -हिनः वैध १,
८, १.
अभ्य(भि-अ)व^{दुह} > अभ्यव-
दुग्ध- -न्धान् कौस् ३२, २.
अभ्य(भि-अ)व^{निज्ञ}, अभ्यवनेनेकि
कौस् ४८, ४३.
अभ्यवनेनेजयति कौस् ७१, १६;
८६, १९.
अभ्य(भि-अ)व^{नी}, अभ्यवनयेत्
आपश्रौ १४, २७, १.
अभ्यवनिनाय शाश्रौ १५, २३, १.
अभ्यव-नयत्- -यन् बौश्रौ २, ८ :
१०.
अभ्यव-नीय आपश्रौ ३, २०, १; २०,
२२, ६; हिश्रौ १४, ५, ४.
अभ्य(भि-अ)व^{पूर्व}- -र्वस्य पा ६,
१, २६.
अभ्य(भि-अ)व^{मन्}, अभ्यवमन्यते
वाध १४, १८; विध ५७, १२.

अभ्य(भि-अ)व^{सृज्}, अभ्यवमार्ष्टि
वैश्रौ २, ५ : ६.
अभ्य(भि-अ)व^{रुह}, अभ्यवरोहति
वाश्रौ ३, ३, ३, ११.
अभ्य(भि-अ)व^{वृत्}, अभ्यववर्तेरन्
आपश्रौ ५, १४, १४; बौश्रौ २,
१७ : २२; २०, १७ : ८; माश्रौ
५, ८, १३.
अभ्यववर्तयन्ति बौश्रौ ११, ६ :
१७; १२, ७ : ३२.
अभ्य(भि-अ)व^{सृज्}, अभ्यव-
सृजामि अप १०, १, १३^f.
अभ्य(भि-अ)व^{सृप्}, अभ्यवसर्प-
न्ति माश्रौ २, २, २, ६.
अभ्य(भि-अ)व^{स्ना} > अभ्यव-स्नाय
आपश्रौ १८, २२, ३^e.
अभ्य(भि-अ)व^ह, अभ्यवहरति
†आपश्रौ ९, १५, १६ XX; वैश्रौ;
अभ्यवहरन्ति आपश्रौ ९, ११,
१५; १६, ८, १; बौश्रौ; अभ्य-
वहरत बौश्रौ १६, ४ : ११^f;
अभ्यवहरेत् शाश्रौ ४, ५, ७;
आपश्रौ; अभ्यवहरेयुः आश्रौ ३,
१०, २२; १४, १०; बौश्रौ.
अभ्यवहारयेत् लाश्रौ ८, ८, ३.
अभ्यव-हरण- -णम् शाश्रौ ४, २१,
१८.
अभ्यवहरण(ण-आ)दि- -दि
काश्रौ १७, १, १; आपश्रौ ९,
१७, ४; ५; हिश्रौ १५, ७, २५.
अभ्यवहरणीय- -यानाम् शंघ
१७६.
अभ्यव-हार- -रः विध ४६, २२;
-रेषु वाध ३, ४३.

अभ्यव-हार्य- -र्यै पावा ७, ३, ६९.
अभ्यव-हर्य आपश्रौ ९, १७, १XX;
बौश्रौ.
अभ्यवा(भि-अ)व^{प्रगने} (प्रागने),
अभ्यवानिति शाश्रौ १७, १५,
१३; १६, ६; ८; १७, २.
अभ्यवा(व-अ)न्य शाश्रौ १, २४, २^f.
अभ्यवा(भि-अ)व^{क्षणे} (क्षणे),
अभ्यवायेत् कौस् ८७, २६.
अभ्यवे(भि-अ)व^इ (इ), अभ्यवैति
आपश्रौ ९, ६, १०^f; २३, १३,
१४; हिश्रौ १५, २, १६; अभ्य-
वयन्ति शाश्रौ १३, २९, २१; ३०;
काश्रौ २०, ८, १७; २४, ६, १०;
३६; आपश्रौ २३, १३, ६; वैश्रौ
८, १४; ३; ९, ३; १८^g XX; हिश्रौ;
अभ्यवैमि शाश्रौ २, १२, १२^f;
अभ्यवेयात् लाश्रौ ९, १, २३; १०,
१९, ९; १०; २०, ७; पाश्रु २, ११,
७; माश्रु; अभ्यवेयुः द्राश्रौ ११,
४, ११; लाश्रौ ४, ४, १०; १०,
१७, १०; आपध १, २५, ११;
वौध २, १, ४१; हिध १, ७, ७.
अभ्यवेयाय बौश्रौ १८, १३ : ६.
अभ्यवे(व-इ)त- -न्ते आपश्रौ १८,
१३, ४; हिश्रौ १३, ५, १३.
अभ्यवे(व-इ)त्य काश्रौ ५, ५, २९;
६, १०, ३; बौपि १, ४ : ४.
अभ्यवे(व-इ)त्य, त्या- -त्यम् बौश्रौ
२६, ७ : १३; -त्याः आपश्रौ
८, ७, १९; २१; वैश्रौ १६,
२४ : ८.
अभ्यवे(व-ए)प्यत्- -प्यताम् हिश्रौ
१०, ८, २६.

a) वैतु. संस्कृतां शब्दसूच्यां ष्वात् इति शोधुकः? । b) प्राप्त. । c) सप्र. °हन्ति <> °हयन्ति इति पाभे. । d) नाप. (।अपत्नीक-।त्रानप्रस्थाऽन्यतम-।) e) °प्य इति पाठः? यनि. शोधः (तु. सा ।तै. पृ १२७८), C. च । f) पाभे. पृ ३२२ h द्र. । g) सप्र. हिश्रौ ५, ३, ४८ अवयन्ति इति, आपश्रौ ८, १२, ६ प्रतिपादयति इति च पाभे. । h) सपा. अभ्यवैमि <> उपैमि इति पाभे. ।

अभ्यवो(भि-अव√उ)क्ष्, अभ्यवो-
क्षति कौट ५, ५, ५.

अभ्य(मि√अ)श् (व्याप्तौ), अभ्यश्नुते
आपश्रौ २२, १४, २०XX; हिश्रौ;
अभि...अश्नुते शांश्रौ १०, १८,
८; अभि(अश्रोति) आश्रौ ७, ८,
१; अभ्यश्नुवते आपश्रौ २३, १,
८; १३; ३, २; १५XX; हिश्रौ;
अभि...अश्नुवते शांश्रौ १०,
१८, ८; अभ्यश्नुवीत निसू ९,
११ : ३२; अभ्यश्नुवीताम् या
१३, २.

अभ्यानशे वौश्रौ १८, ४५ : ८;
अभि...अश्याम् आश्रौ ४, ५,
३#^a; अभि...आष्ट आश्रौ ४,
६, ३#^b.

अभ्य(भि-अ)दान- -नात् या २, १५;
६, १; -नेन या ६, ३.

अभ्या(भि-आ)श- -शे वौपि १,
४ : ३.

अभ्य(भि√अ)स्(भुवि), अभी...अस्मि
या ३, १००; अभी (अस्मि) वृदे
१, ४९; या ३, १०; अभि(अस्तु)
ऋप्रा ९, ४७; #अभि...असाम
आपश्रौ २४, १३, ३; वौश्रौ ३,
२८ : १३; या ३, ८; अभि...
स्यात् आपश्रौ १७, २३, २;
अभिष्याम ऋप्रा १२, २०#;
अभिष्याम^c अप्रा ३, १, ७; शौच
२, १०७.

अभ्य(भि√अ)स्(क्षेपणे), अभ्यसेत्
लाश्रौ ७, ५, १८; सु १, १; वौश्र
३, ३, ३३; वाध २५, ४; १०;
आपध १, २७, ८^d; वौध ४, १,

२४.

अभ्यस्यति निसू ३, ५ : २४XX;
कौसू; अभ्यस्यन्ति शांश्रौ ७, २६,
१२; ९, १८, २; अभ्यस्येत् आश्रौ
८, १२, ९; ९, ९, १६; आपश्रौ;
हिध १, ७, ३३^e; अभ्यस्येयुः द्राश्रौ
५, ३, १२; ९, ३, २१; लाश्रौ.

अभ्यस्यते निसू १, १२ : २६;
अभ्यस्यन्ते माश्रौ ५, २, ९, ५;
अभ्यस्येत लाश्रौ १०, १३, ४;
मीसू १०, ५, २९; १२, ३, ११.

अभ्य(भि-अ)सत्- -सन्तः वाध
२३, ३५.

अभ्य(भि-अ)सित्वा आश्रौ ५, १५, ६.

अभ्य(भि-अ)स्त, स्ता- -स्तः या
२, १२; ४, २३; २५; -स्तम्
शांश्रौ ३, १९, ९; वौश्रौ; या ३,
१०; पा ६, १, ५; -स्तया वौश्रु
३:२२; -स्तस्य पा ६, १, ३३;
७, ३, ८७, -स्ता वौश्रु ३ : १८;
-स्ताः अप्रा ३, ४, १; -स्तात्
या ६, ३; पा ७, १, ४; ७८;
-स्तानाम् पा ६, १, १८९; पावा
७, ३, ८७; -स्तानि शंघ ४१७;
-स्ताभिः आश्रौ १, २, २२;
आपश्रु ५, ३; ४; हिश्रु २, १०;
११; १३; -स्ताम् अर्प ३ : ६;
-स्तेन लाश्रौ ६, १०, ७.

अभ्यस्त-गीति^f- -ति निसू ८,
२ : ५७.

अभ्यस्त-तादि-स्वर^g- -रः पावा
१, १, ५१.

अभ्यस्त-निमित्त- -से पावा ६,
१, ३३.

अभ्यस्त-प्रसारण^h- -णे पावा ६,
१, ३३.

अभ्यस्त-विधि-प्रतिषेधⁱ- -घः
पावा ६, १, ९.

अभ्यस्त-संज्ञा- -ज्ञायाम् पावा
६, १, ५.

अभ्यस्त-स्वर- -रः पावा ६, १,
१८४.

अभ्य(भि-अ)स्य वाश्रौ ३, २, २,
३९; ४, १०; वंताश्रौ.

अभ्य(भि-अ)स्यत्- -स्यन् क्षुस् २,
२ : १३.

अभ्या(भि-आ)स- -सः शांश्रौ १३,
२७, ५; आपश्रौ; या २, २; ३;

पा ६, १, ४; -सस्य अप्रा २, ३,
१९XX; शौच; पा ३, १, ६; ६, १,
७; १७; ४, ७८; ७, ४, ४; ५८; ८, ३,
६४; पावा १, १, ६५; ६, १,
१२^g; -साः आश्रौ ७, १०, ६;
८, १, १२; -सात् लाश्रौ ७, १,
९; ३, १५; निसू; पा ७, ३, ५५;
८, ३, ६१; -से लाश्रौ ७, ३, १६;
वाध; या १०, ४२; पा १, ३, ७१;
८, ४, ५४; -सेन वाश्रौ २, २,
४, ५; लाश्रौ; या ५, १२; पा ८,
३, ६४.

अभ्यास- -सयोः पावा ६, १,
१०६.

अभ्यास^o पावा ८, २, ६.

अभ्यास-चतुर्थ- -र्थे काश्रु १, १२.

अभ्यास-जि-वि-चतुर्^l- -तुर्णाम्
पावा ८, २, ७८.

अभ्यास-दीर्घत्व^m- -स्वे पावा ३,
१, ६.

a) पाभे. वैप १ परि. अभि...अश्याम् ऋ १, १५४, ५ टि. द्र. ।

b) पाभे. वैप १ परि. द्र. ।

c) वैतु. शंपा. R.W. प्रभृ. षत्वभावः । पाभे. । वैप १ साज्झाम टि. द्र. ।

d) सपा. षेत् < > ष्येत्

इति पाभे. ।

e) विप. (सौहविष- [साम-विशेष-]) । वस. ।

f) द्रस. > षस. । g) षस. । h) षस.

> षस. । i) द्रस. ।

अभ्यास-निर्जि (त >) ता- -ता
माशि १५, ७.
अभ्यास-प्रकृति-त्व- -त्वात् मीस्
१०, ५, २७.
अभ्यास-प्रतिषेधा (ध-आ) नर्थ-
क्य^१- -क्यम् पावा ६, १, ८.
अभ्यास-प्रतिषेधा (ध-अ) र्थ-
-र्थम् मीस् १०, ८, २७.
अभ्यास-प्रसारणा (ए-अ)
प्राप्ति^२- -सिः पावा ६, १, ३३.
अभ्यास-ब्राह्मण^३- -णम् निस् ३,
१३ : २६.
अभ्यास-योग- -गेन माशि १६,
१२; याशि २, १०५.
अभ्यास रूप- -पम् पावा १, १,
५९^३; ६, १, ४५.
अभ्यास-लक्षण-प्रतिषेध^४- -धः
पावा ६, १, ३०.
अभ्यास-लोप- -पः पा ६, ४,
११९; पावा १, १, ५१; ६५.
अभ्यास-वचन- -नम् पावा ८,
३, ६४.
अभ्यास-वत् निस् ३, १३ : ८.
अभ्यास-वत्- -वतः लाश्रौ ६,
११, ३; -वति लाश्रौ ७, १, १३.
अभ्यास-विकार- -रेषु पावा ३,
१, ६; ७, ४, ८०.
अभ्यास-घिनत- -ताताम् शौच
४, ८२.
अभ्यास-व्यवाय- -ये शौच २,
९३; पावा ६, १, १३२.
अभ्यास-शास्त्र-त्व- -त्वात् मीस्
१२, ३, १३.
अभ्यास-षष्ठ- -ष्ठे काशु १, १४.

अभ्यास-संप्रसारण- -णम् पावा
६, १, १७.
अभ्यासा (स-अ) तिप्रैष^५- -वा-
भ्याम् आश्रौ ७, १, १९; -वौ
आश्रौ ७, १, ११.
अभ्यासा (स-आ) दि- -दिः
लाश्रौ ६, १२, १३; ७, १, ३;
-दीनाम् पावा ६, १, ८४.
अभ्यासा (स-आ) देश-सिद्धत्व^६-
-त्वस्य पावा ६, ४, १२०.
अभ्यासा (स-आ) नर्थक्य-
-क्यम् मीस् १०, २, ११.
अभ्यासा (स-अ) नुपपत्ति- -त्तौ
काश्रौ २४, ७, १८.
अभ्यासा (स-अ) र्थ- -र्थम् पावा
६, १, १६; -र्थे ऋप्रा १३, ४९;
कौशि ६१; माशि १, ३; पाशि
३०; याशि १, ४९.
अभ्या (भि-आ) सम् आपश्रौ १६,
२८, १; १७, ५, १; २०, १२,
१०; बौश्रौ १४, ९ : ३६; वैश्रौ
१८, २० : २१; १९, ५ : १३;
द्राश्रौ २, ४, २१; लाश्रौ १, ८,
१४; ७, ९, १४^३; ९, २, ६; लुस्
२, १६ : १९; निस् ९, ६ : २८.
१ अभ्यस्त- अभ्य (भि✓अ) स्
(क्षेपणे) द.
२ अभ्य (भि-अ) स्त^७ > अभ्यस्तम्
✓ ह, अभ्यस्तमियात् आश्रौ
३, १२, १६; २९; १२, ८,
२२; बौश्रौ ९, १७ : २; ४;
२६, २२ : ६; आश्रु ३, ७, १;
माश्रु १, ३, १; अप्राय १, २^३;
६, ८; ९^३; अभि...अस्तमियात्

माश्रौ ५, २१, १४^१.
अभ्यस्तम्-इत- -तः माश्रु १, ३,
२; ३; गौघ २३, २१; -तयोः
शाश्रौ ३, १९, १७; -ते बौश्रौ
२४, २२ : ९; माश्रौ ४, ३, ४८.
अभ्यस्य, ऽस्यत्- अभ्य (भि✓अ) स्
(क्षेपणे) द.
१ अभ्या इयम् निस् ३, ८ : ८.
अभ्या (भि-आ) ✓ कृ > अभ्या-कारम्
आपश्रौ २, ४, ४-६^६; बौश्रौ २०,
१० : २; माश्रौ २, ४, ४-६^६; वैश्रौ
५, २ : १५; हिश्रौ १, ७, ७-९^६.
अभ्या (भि-आ) ✓ क्रन्द, अभ्या-
क्रन्दति वाधुश्रौ ४, ३० : २१.
अभ्या (भि-आ) ✓ कुश, अभ्याकोशन्
शाश्रौ १४, ५०-५१, १.
अभ्या (भि-आ) ✓ ख्या > अभ्या-
ख्यात, ता- -ता शंघ २५१;
-ताय कौस् ४६, १.
अभ्या (भि-आ) ✓ गच्छ, गम्, अभ्या-
गच्छति आपध २, ६, ३; ५^६;
हिघ २, २, ३; अभ्यागच्छेत्
आपध २, ५, ४; ७, १२; १३;
१५; हिघ २, १, ८४; २, ३२;
३४; ३६.
अभ्याजगाम वृदे ४, १; २.
अभ्या-गच्छत्- -च्छन् माश्रु १, ११;
७; हिश्रु १, १२, ७; हिघ २, २,
५^६.
अभ्या-गत, ता^१- -तम् वैश्रु २, १५ :
१३; ६, १८ : ६; वाध ८, १२;
आपध २, ४, १९; हिघ २, १,
७२; -ताः द्राश्रु ३, ३, ४; -तान्
बौध २, ३, ११; विघ ५९, २७;

a) षस. > षस. । b) द्रस. > षस. । c) नाप. (ब्राह्मण-विशेष-) । कस. । d) द्रस. । e) अस.
वा. क्रिवि. । f) सप्र. आपश्रौ ५, २९, १३ अभिनिज्रोचेत् इति पाभे । g) सप्र. अभ्याकारम् <> अभ्याहवम्
इति पाभे. । h) सपा. अभ्यागच्छति <> अभ्यागच्छन् इति पाभे. । i) विप. (गो- L द्राश्रु. J), नाप.
(अतिधि-, वर-) ।

११,७; वैध १,४,२; २,४,६; ३, १,३; -ताय वाध ४,८; -तेभ्यः बौगृ २,९,२१; वैगृ ६,१७ : ७; वैध १,५,४.

अभ्या-गमन- नम् आपध १, १, ३३; २, ६; हिध १, १, ३१; ३९.

अभ्या-गम्य आपध २, ५, ४; ६,७; हिध २, १, ८४; २, ७; अभ्या-गम्यः अभ्यागम्य वैश्री १०, १८ : ५.

अभ्या(भि-आ) √गा, ऋभि... आगात्^१ आपश्रौ ४, १०, ७; भाश्रौ ४, १५, ७.

ऋअभ्या(भि-आ)गार^२ -रे^० आगृ २, ३, ३.

अभ्या-घात- प्रथ. अभ्या √हन^३ द्र. अभ्या(भि-आ) √घृ, अभि...आघा-रयेत् हिश्रौ १५, ४, ४९.

अभ्या(भि-आ) √चर^४ > अभ्या-चार- -रे मागृ २, ७, ११^०; -रेण हिगृ २, १६, ८^०द^१.

१अभ्या(भि-आ)ज्य^० -ज्यम् वाश्रौ १, ४, १, ८.

२अभ्याज्य^१ -ज्यानाम्^२ } वैध ४, }
आभ्याज्य- -ज्य } १, ८. }
अभ्याज्य-वन्

अभ्या(भि-आ) √तञ्च्, अभ्या-तनक्ति बौश्रौ १, १ : ४; ३ : ३३; २०, ४ : ३२.

अभ्या-तक्त- -क्तम् बौश्रौ २०, ४ :

३४.

अभ्या(भि-आ) √तन् > अभ्या-तान^५ -नाः बौश्रौ २६, ९ : ३१; वैगृ १, १७ : १२; मागृ १, ११, १५; -नान् बौश्रौ ऋ, ११ : १७; १३ : ६; १४, १६ : १६; १७; २५; २३, ७ : १२; १३; २९, १३ : १९; हिश्रौ २२, १, ३१; आम्रिगृ १, १, २ : १७; ६, २ : ३; ६; बौगृ १, ४, ३२; ३, १३, ३; वैगृ ६, २ : ३; हिगृ १, ३, १०; -नानि अप ६६, २, ५; -नेषु आपश्रौ १९, १७, १९; बौश्रौ २३, ७ : ११; हिश्रौ २२, १, ३१; आम्रिगृ १, १, २ : १७; हिगृ १, ३, ११; -नैः कौस् १३७, ४२; अप ३७, १६, १. अभ्यातान-मन्त्र- -न्त्रान् अप ९, ६, ५; -न्त्रैः अप १९^३, ३, ५. अभ्याताना(न-अ)न्त^१ -न्तम् अप १८^३, ६, २; १५, १.

१अभ्यातानाम् चाअ ३८ : १४.

अभ्या(भि-आ)त्म- -!त्मन्^१ हिगृ १, ५, ८; -त्मम् आश्रौ १, ३, २८; ७, १; १३, १; २, ४, १२; ५, ५, १२; ६, १२, ११; काश्रौ १६, ७, १२; १७, २, १; १८, २, ११; आपश्रौ ३, २०, ५; भाश्रौ ३, १८, ४; वैश्री ७, १ : ११; हिश्रौ २, ८, ३५; लाश्रौ २, ११, २०^६;

आगृ १, ७, १४; कौगृ १, १, ९; शांगृ १, ५, ७; गोगृ ३, ९, १८; द्रागृ ३, ३, २४; कौस् ५६, १६.

अभ्यात्म-तर- -रस् आश्रौ ५, ५, १२.

अभ्यात्मा(त्म-अ)म^१ -म्राणि आगृ १, १७, ८.

अभ्या(भि-आ) √दह^१ > अभ्या-दाह^१ -ह्येन आपश्रौ ९, ३, २२; भाश्रौ ९, ५, १२; हिश्रौ १५, १, ६९.

अभ्या(भि-आ) √दा (दाने) > अभ्या-दान- -ने पा ८, २, ८७.

अभ्या-दाय माश्रौ ६, १, १, २७.

अभ्या(भि-आ) √दृ, अभ्याद्रवन्ति बौश्रौ १०, २८ : ९; २९ : ३; ५; ७; ९; ११.

अभ्या(भि-आ) √धा, अभ्यादधाति शांश्रौ २, ८, २२××; काश्रौ; आपश्रौ २, १२, ६^६; या ६, २२; अभ्याधत्तः बौश्रौ ५, ७ : २; ७, १४ : ६; हिश्रौ ८, ७, २०; अभ्यादधते माश्रौ २, ५, ४, ८; अभ्यादधति आश्रौ ३, ६, २७; ६, १२, ३; आपश्रौ; ऋअभ्या-दधामि काश्रौ १९, १, ११; कागृ ४१, २३; शुअ २, ४२३; अभ्या-दध्यान् आश्रौ २, ५, ११; आपश्रौ.

अभ्याधापयति आम्रिगृ १, १,

a) पाभे. पृ २९२ m द्र. । b) प्रास. । c) पाभे. पृ १२८ i द्र. । d) अभ्याचारे इति संस्कृत-रमितः पाठः । e) विप. ([आज्योत्सिक्त-] जीव-तरङ्गुल-) । वस. । f) व्यप. (ऋषि-विशेष-) । सप्र. ३अज- > -जानाम्, २अज- > -ज, २आज्य- > -ज्य इति पाभे. । g) आज्यानाम् इति पाठः ? यनि. शोधः । बहु. < आभ्या^० इति । h) नाप. (मन्त्र-विशेष-, होम-विशेष-) । i) विप. । वस. । j) पाठः ? -त्मम् इति शोधः (तु. भाष्यम्, Böht [ZDMG ४३, ५९९]) । k) सप्र. द्राश्रौ ९, १, ५ अभ्यात्मम् इति पाभे. । l) नाप. ([गृहदाहक-] अग्नि-) । गस. । m) सप्र. भाश्रौ २, १२, ३ अभ्याधाय इति, हिश्रौ २, १, ३ आदधाति इति, वैश्री ६, १ : ६ प्रक्षिप्य इति च पाभे. ।

४ : २; हि० १,७,१.
 अभ्या-घान-नात् बौश्रौ २४,१५ :
 ३; -ने बौश्रौ २०, १४ : २१;
 १६ : ४३; २२, ३ : १०; १३.
 अभ्याघान-प्रभृति- -ति बौश्रौ
 १९, ५ : १.
 अभ्या-घापयत्- -यन् बौश्रौ ९,
 १९ : २२; २० : ११; बौगृ २,
 ५, ९; ३५; ६६; ३, २, १०; २३;
 ३५; ४८; ३, १२; ४, १५; ३१.
 अभ्या-घाय आपश्रौ ३, ९, १२××;
 बौश्रौ; भाश्रौ २, १२, ३^१.
 अभ्या-घास्यत्- -स्यन् आपश्रौ १२,
 ३, ५; गो० १, १, ७.
 अभ्या-धीयमान, ना- -नम् बौश्रौ ३,
 १७ : २७; -नयोः बौश्रौ ३,
 १६ : २६; २०, २३ : ४३.
 अभ्या-धेय- -यम् वाधूश्रौ ३, १९ :
 १२; -यानाम् कौस् ७, २८.
 अभ्या-हित- -तस्य माश्रौ १, ३, १,
 ५; १५; वागृ २, ४; -ते बौश्रौ
 २४, १५ : १३.
 अभ्याहिता(त-अ)मि- -मिम्
 मागृ १, १४, ६; वागृ १५, १७.
 अभ्या(मि-आ)√ध्वै, अभ्याध्यायन्
 वाधूश्रौ ४, ११५ : १.
 अभ्या(मि-आ)√नी>अभ्या-नायन्
 आपगृ १२, ९^१७.
 अभ्या-नीय आश्रौ ३, ११, ९; हिश्रौ
 ५, १, २२; आपगृ ४, ९; २०, ४.
 अभ्या(मि-आ)प, अभ्याप्नोति
 वाधूश्रौ ४, १०० : १६.
 अभीप्सति अप १३, २, ८; कौशि
 ३३.
 अभी(मि-ई)प्स(त्>)न्ती- -न्तीम्

वृदे ६, १५४.
 अभी(मि-ई)प्सित- -तम् विध
 ९२, २.
 अभ्या(मि-आ)√पत् (गती),
 अभ्यापातयेत् बौश्रु २ : २०.
 अभ्या(मि-आ)√पद्, अभ्यापद्येत्
 आगृ ३, ९, ६.
 अभ्या-पद्- -न्नः या १२, १८.
 अभ्या-पादम् या ७, २६.
 अभ्या(मि-आ)√बाध् > अभ्या-
 बाध्- -धः अप्राय ४, १.
 अभ्या(मि-आ)√भू, अभ्याभवेत्
 कौगृ ३, ९, ४७^१.
 अभ्या(मि-आ)√यत्, अभ्यायात-
 यति बौश्रौ १०, ४२ : २१;
 ४६ : १८; २१; ११, ११ : ११;
 वैश्रौ १९, ५ : ३४.
 अभ्या(मि-आ)√रुह्, अभ्यारोहति
 वाधूश्रौ ४, ९२ : ७; १०; हिश्रौ
 १७, ६, १९; अभ्यारोहन्ति
 बौगृ ३, १२, ११; बौपि १, १७ :
 ३५; २, ९, २१; अभ्यारोहेत्
 आपश्रौ ७, ३, ५; हिश्रौ ४, १, ३७.
 अभ्यारोहो बौश्रौ १८, १३ : ८.
 अभ्यारोहयेत् आम्रिगृ ३, ७, २ :
 १६.
 अभ्या-रुह्य बौश्रौ १, ५ : २.
 अभ्या-रुढ- -ढः बौश्रौ २०, २४ :
 ५; १२; २०; २३, १७ : १७.
 अभ्या-रोह- -हाः वाधूश्रौ ३, ७६ : ६.
 अभ्या-रोहण-> णीय- -यस्य
 लाश्रौ ८, ११, ८; ९, १, ७; ८;
 -याय लाश्रौ ९, १, २०; -येन
 आश्रौ ९, ३, २; लाश्रौ ९, ३, १३.
 अभ्या(मि-आ)√वृ (प्रतिघाते),

अभ्यावारयन्ति निस् ५, २ : ८.
 अभ्या(मि-आ)√वृत्, अभ्यावर्तते
 शाश्रौ ७, ४, १६; आपश्रौ;
 अभ्यावर्तन्ते आपश्रौ १४, ५, ४;
 हिश्रौ ९, ८, २; अभ्या(वर्ते) अत्र
 १०, ७ १; अभि...आवर्तन्त,
 अभि^२(आवर्तन्त) वाधूश्रौ ४,
 २२ : ७; ऋअभ्यावर्तस्व बौश्रौ
 १०, २६ : २; कागृ; अभ्यावर्तेत्
 आपश्रौ ८, २२, १६; २१, ३, ४;
 बौश्रौ २१, ४ : ९; ८ : ३५; १६ :
 १९; २२, ११ : ८; २५, ३४ :
 ४; भाश्रौ १, २, ५; हिश्रौ १६,
 २, ३; द्राश्रौ १२, १, १३; अप्राय
 ४, २; अभ्यावर्तेरन् भाश्रौ ६,
 १६, २७; ९, १७, १३; वैश्रौ १,
 १३ : १.
 ऋअभ्यावृत्स्व आम्रिगृ ३, ५,
 ६ : ८; कागृ ११, २^१; बौगृ १,
 ८, ५; बौपि १, ४ : २४; ऋअभि-
 ...आवृत्स्व^२ कौस् ७२, १४.
 अभ्यावर्तयति वाश्रौ २, १, ६,
 १०; अभ्यावर्तयन्ति बौश्रौ ६,
 २४ : १६; हिश्रौ १६, ८, ४;
 अभ्यावर्तयेत् बौश्रौ २१, १४ :
 १८; २२, २ : ६; २३, १६ : ३;
 २६, १५ : २२; भाश्रौ १, २, ५;
 शांश्रु ४, ८, २०; अभ्यावर्तयेयुः
 बौश्रौ २०, १ : २०; २३, ८ :
 २०; २२; आम्रिगृ ३, ६, ३ :
 ११; बौपि १, ११ : ९.
 अभ्या-वर्तन- -ने बौश्रौ २१, १४ :
 १७.
 अभ्या-वर्तम् शाश्रौ १५, ११, ५;
 वाधूश्रौ ४, ८१ : २; ४-७.

a) पामे. पृ ३२६ ० द्र. । b) पाठः? णायम् (णमुलन्तम्) इति शोध इति भाष्ययोः संमतः ।
 हरदत्तस्तु [पक्षे] अभ्याययत्-> -यन् इति वा वर्णलोपात् यनि. [=अभ्यानाययन्] इति वा । c) भाप. । गस. ।
 d) सप्र. शांश्रु ४, ७, ५२ भवेत् इति पामे. । e) अभ्य^० इति पाठः? यनि. शोधः । f) पामे. वैप १ परि. द्र. ।

अभ्या-वर्तयत्- -यन् हिथ्रौ ११,
७,६५.

अभ्या-वर्तयित्वा कौट ३,९,५९;४,
१,१.

अभ्या-वर्तिन्^a- -तिं बौथ्रौ १८,
२७: १-१०; -[†]र्तिन् काथ्रौ
१६, ५, १५; आपथ्रौ; -र्तिनम्
बुदे ५,१३८; -र्तिने ऋथ्र २,६,
२७; -र्तीं बुदे ५,१२४.

अभ्यावर्तिनी^b- -नी:

आमिग २, ६, ५: ७^c; ७, २:
१९; ९: ४६; बौग २, ९, १०;
भाग ३, २: ८; १५: १६; २१:
१०; वैग ६, १६: ६; हिग १, २६,
११; बौध ३, ७, ११; -नीभि:
वैथ्रौ १८, ८: ७; १०: ११.

अभ्यावर्ति-सार्जय^d- -यौ बुदे
५, १३९.

अभ्या-वृत्- -त्तः अप्रायं ३, ३;
-त्तम् काथ्रौ ७, ४, ३५.

अभ्या-वृत्ति- -त्तिः शंथ्रौ ३, २, ९;
३, ९; मीस् ५, २, ३.

अभ्या-वृत्त्य काथ्रौ ७, ४, १५;
आपथ्रौ ३, १८, ५; २२, ९, १६;
[†]बौथ्रौ; हिग १, २०, २^e.

अभ्याश- अभ्य(भि√अ)श(व्याप्तौ)
द्र.

अभ्या(भि-आ)√शंस, अभ्याशंसते
वाधूथ्रौ ३, ६९: १४; १५.

अभ्या(भि-आ)√श्रु, अभ्याश्रावयेत्
आपथ्रौ ९, १२, १; आपध २,
२२, २०; हिध २, ५, १५१;
अभ्याश्रावयेयुः आथ्रौ १२, ८,
२०.

अभ्या-श्रावण- -णम् द्राथ्रौ ७, ३,
२९; लाथ्रौ ३, ३, २९; -णे
वैताथ्रौ २१, १७.

अभ्या-श्रावित- -ते आथ्रौ ३, १३,
१०.

अभ्यास- प्रभृ. अभ्य(भि√अ)स्
(क्षेपणे) द्र.

अभ्या(भि-आ)√सञ्ज्, अभ्या-
सजति आपथ्रौ १४, ३४, ३; ४^f;
हिथ्रौ १५, ८, ४६; ४७^g.

अभ्या-सक्त- -क्तः आथ्रौ १०, ३,
४; निसू ९, १३: १५.

अभ्या-सङ्ग- -ङ्गः निसू ९, १३: १६.

अभ्या-सङ्गय^h- -ङ्गयः आपथ्रौ २२,
२०, ५; २२, ९; २३, १२; २४,
४, ५; ११; १२; बौथ्रौ १६,
३२: ६; हिथ्रौ १७, ८, १५;
२८; ३६; लाथ्रौ ९, १२, १५;
-ङ्गयेन हिथ्रौ १७, ७, १८.

अभ्यासङ्गय पञ्चशरदीय^d-
-ययोः वैताथ्रौ ४१, १५; १९.

अभ्यासम् अभ्य(भि√अ)स्
(क्षेपणे) द्र.

[†]अभ्य-आसम्^h वैताथ्रौ ३४, ९.

अभ्या(भि-आ)√सिच् > अभ्या-
सिच्य गोथ्र १, ८, १२.

अभ्या(भि-आ)√सृज्, अभ्यासृजति
माथ्रौ २, ४, ३, १९; ६, २१.

अभ्या(भि आ)√हन्, अभ्याहन्यात्
शैशि १५४; यारि १, २४.

अभ्या-वात- -तः बौग ४, ४, १.

अभ्या-घातिन्- पा ३, २, १४२.

अभ्या-घातुक- -कम् अप १, ३०, ४.

अभ्या-घात्य- > ^hत्य-सामन्^h-

-मानः निसू ३, ५: २५.

अभ्या-हित- प्रभृ. अभ्या√घा द्र.

अभ्या(भि-आ)√ह् > अभ्या-हृत्य^h
वैथ्रौ १२, १३: १; हिथ्रौ १५,
४, ८; हिग २, ७, २; ८, ६.

अभ्या(भि-आ)√ह्, अभ्याहृत्यते
बौथ्रौ १४, १०: १XX; वाधूथ्रौ;
अभि...आहृत्यते बौथ्रौ ७, १७:
४; २६ XX.

अभ्या-हव- -वम् माथ्रौ १, २, ५,
२ⁱ.

अभ्या-हृत- -तः बौथ्रौ १४, १०:
१७; ३४.

अभ्युक्त- अभि√वच् द्र.

अभ्यु(भि√उ)क्ष्, अभ्युक्षते शंथ्रौ
८, ११, १३; आमिग २, ६, १:
१५; अभ्युक्षति आपथ्रौ १५,
१४, १३; माथ्रौ; अभ्युक्षन्ति
जैथ्रौप १५; अभ्युक्षत् भाग २,
३०: १०XX; गोथ्र; अभ्युक्षेरन्
आथ्रौ ६, १३, १२; द्राथ्रौ ६, ४,
८; लाथ्रौ २, १२, ९.

अभ्यु(भि-उ)क्षण- -णम् वैग १, ५:
६XX; गोथ्र.

अभ्युक्षण-प्रभृति- -ति द्राथ्रौ
११, ४, १७; १३, १, १२; ४, १;
लाथ्रौ ४, ४, १६; ५, १, १०;
४, ७.

अभ्युक्षणा(ण-आ)दि- -दि
काग ६०, ८.

अभ्यु(भि-उ)क्षत्- -क्षन् वैताथ्रौ ५,
११; गोथ्र ४, ९, १५; १८; द्राग
४, ४, १; ३.

अभ्यु(भि-उ)क्षित- -तम् वैथ्रौ १२,

a) व्यप. (बुदे ५, १२४)। शिष्टं वैप १, परि. च द्र.। b) नाप. (ऋक्चतुष्टय- आहुति-विशेष-).। c) [†]र्तनी:

इति पाठः? यनि. शोधः। d) द्रस.। e) पाठः? अभ्यावर्त्य इति शोधः (तु. मूको., भाष्यम्, Böht [ZDMG
४३, ६००]। f) नाप. (ऋतु-विशेष-).। गस.। g) पाठः?। सप्र. काथ्रौ १३, ३, २६ आपथ्रौ २१, २०, ३ वाथ्रौ
३, २, ५, ४३ हिथ्रौ १६, ६, ४१ विशिष्टः पाभे.। h) विप. (छन्दोम-).। बस.। i) पाभे. पृ ३२५ g द्र.।

१९ : १२; -तानि शोध १७६.
 अभ्यु(मि-उ)क्ष्य आश्रौ २, ६, १०;
 शाश्रौ; हिध १, ५, ७^०.
 अभ्यु(मि-उ)च्, ऋभि...उच्यति
 बौश्रौ १३, ४ : ७; ९.
 अभ्यु(मि-उद्)च्/चि (चयने)
 अभ्युच्-चय- -येन आपध २, २०,
 ७; हिध २, ५, ९४.
 अभ्यु(मि-उद्)च्/छन्द् > अभ्यु-
 च्-छन्दयत्- -यन् बौध २, २,
 ७४; ३, २, २.
 अभ्युच्छि (मि-उद् > च्/श्रि),
 अभ्युच्छ्रयस्व जैश्रौ १४ : २०.
 अभ्युच्-छित- -तेन अप ५८^०, २, ८.
 अभ्यु(मि-उद्)ञ्/जुप्, अभ्यु-
 ज्जुपस्व अप्राथ ४, ४^०.
 अभ्यु(मि-उद्)ञ्/ज्वल्, ?अभ्यु-
 ज्ज्वलेत् आमिण् ३, ५, ८ : १२^b;
 १५^०; ६, ४ : ८^b.
 अभ्युज्ज्वलयेत् बौपि १, ७ :
 १३; १३ : ८; अभ्युज्ज्वलयेयुः
 बौपि १, ७ : १६.
 अभ्यु(मि-उद्)त्/कुप् > अभ्यु-
 त्-कुप्य बौश्रौ १०, १० : १०^d.
 अभ्यु (मि-उद् >) त्/क्रम्,
 अभ्युत्क्रामयति आश्रौ १, ७, १९;
 अभ्युत्क्रामयन्ति गोग् २, २, १०.
 अभ्युत्क्रमयेत् जैग् १, २१ : २७.
 अभ्युत्-क्रम्य वैताश्रौ ९, १६.
 अभ्युत्था(मि-उद्/स्था), अभ्युत्तिष्ठेत्
 द्राग् ४, १, १६.
 अभ्युत्-थाय आमिण् २, ६, ५ :
 २१; बौग् २, ९, १८.
 अभ्युत्-थास्यत्- -स्यन् माश्रौ ५,
 १, ५, ३०.

अभ्युत्-थित, ता- -तः बौग् १, ८,
 २; अप १, २७-३०, ४; -तम्
 या ९, ४; -तस्य अप १, ३२,
 २; -ताम् अप १, ३६, १-६.
 अभ्यु(मि-उद्)त्/पृ (पूरणे) >
 अभ्युत्-पूर्य वाश्रौ १, ३, २, ७.
 अभ्यु(मि-उद्)त्/सद्, अभ्यु-
 त्सादयाम्/ह, अभ्युत्सादयामकः
 पा ३, १, ४२.
 अभ्यु(मि-उद्)त्/सिच्, ङ्च्,
 अभ्युत्सिच्येत वैश्रौ २०, २९ :
 ४^०.
 अभ्युत्-सिञ्चत्- -ञ्चन् शाण् ३, ८,
 ४.
 अभ्यु(मि-उद्)त्/सृज्, अभ्युत्सृजति
 बौश्रौ १६, २७ : १९; २०.
 अभ्यु(मि-उद्)त्/सृप् > अभ्युत्-
 सृप्य बौश्रौ १८, ९ : २८.
 अभ्यु(मि-उ)द्, न्द्, अभ्युन्दति
 माश्रौ २, १, १, २१; माग् १,
 २१, ३; अभ्युन्देत् काग् ४०, १०
 अभ्युनत्ति हिश्रौ ५, १, ४४; अभ्यु-
 न्यात् वाग् ४, ८; १५; जैग् १,
 ११ : १०.
 २अभ्यु(मि-उ)द्य माश्रौ ६, १, २, १७;
 वैश्रौ ८, ८ : ३; कौस् ३१, १;
 ११.
 अभ्यु(मि-उ)न्द्- -ने वाग् ४, ३.
 अभ्युद्(द्-अ)य- अभ्युद्/इ द्र.
 अभ्युदा(मि-उद्-आ) वनी, अभ्यु-
 दानयते वाश्रौ १, ६, ५, १२;
 अभ्युदानयति माश्रौ १, २, ४,
 २४ X X; हिश्रौ; अभ्युदानयन्ति
 माश्रौ २, ३, २, २४; वाश्रौ ३,
 २, ७, १०; काग् ३७, ४; अभ्यु-

दानय माश्रौ २, ३, २, ९^०.
 अभ्युदानयत्- -यन् गोग् २, १, १८.
 अभ्युदानीय माश्रौ २, २, ४, १९.
 अभ्युदा(मि-उद्-आ) वह, अभ्युदा-
 हरति आपश्रौ १, १०, १४; माश्रौ
 १, २, ६, २६; ७, १, ३६; २, ५,
 २, १; ५, २, ४, १२; ६, २, ५,
 १५; वाश्रौ १, ७, ४, २४; अभ्यु-
 दाहरन्ति माश्रौ २, ३, १, ९;
 अभ्युदाहरेत् माश्रौ ९, १७, १४;
 हिश्रौ १५, ४, ३०.
 अभ्युदा-हत- -तः वाश्रौ १, ५, ४,
 ४; -तम् माश्रौ १, ६, २, ३;
 -ताः आपश्रौ १५, १, ८; माश्रौ
 ११, १, ११; हिश्रौ २४, १, ५.
 अभ्युदा-हत्य आपश्रौ ३, ५, ७; १४,
 २१, ९; माश्रौ ३, ५, १२; आपग्
 २१, ९; भाग् २, ८ : १०.
 अभ्युदा-हियमाण- -णेबु माश्रौ ५,
 २, १६, ११.
 अभ्युदि(मि-उद्/इ), अभ्युदयत्
 वाधूश्रौ ३, ७० : २.
 अभ्युदेति आपश्रौ ९, ४, ६^०;
 बौश्रौ १४, २४ : १५^०; २१;
 २६; २८; १७, ५० : ६; २०^०;
 माश्रौ ९, ६, २; वैश्रौ २०, १२ :
 ९; हिश्रौ १५, १, ७६; अभ्युदि-
 यात् आपश्रौ ३, १२, २९ X X;
 काश्रौ; आपश्रौ ५, २९, १३^०;
 अभि...उदियात् माश्रौ ५, २१,
 १४^०.
 अभ्युद(द्-अ)य- -यः हिश्रौ ३,
 १, ३; आपध २, २७, ७; त्रिध
 ७७, ६; हिध २, ५, २२६; पापवा
 ९; -ये काश्रौ २५, ३, २०;

a) सपा. अभ्युक्ष्य <> प्रोक्ष्य इति पाभे. । b) पाठः ? °ज्ज्वलयेत् इति शोधः (तु. बौपि.) । c)
 पाठः ? °ज्ज्वलयेयुः इति शोधः (तु. बौपि.) । d) उत्कृष्य इति संस्कर्तुः टि. ? । e) सप्र. अभ्युत्सि° <> उत्सि°
 इति पाभे. । f) पाभे. वैप १, ९०० & द्र. । g) सपा. अभ्युदियात् <> अभि...उदियात् इति पाभे. ।
 वैप ४-प्र-४२

वैताश्रौ २१, १७; आपध १, २०, २; हिध १, ६, १६; मीस् ६, ५, १; ९, ४, ३९; १०, ३, ५५; -येन आशि १, २.

आभ्युदयिक^a -कम् शांष्ट, ४, १; अप ४४, १, ३; ५; वाध १, ४६; -कानि गौध ११, १९; -के आगृ ४, ७, १; अप ४४, १, ९; -केषु वीगृ ३, १२, २; वाध ३, ७१^३; १५, १०.

अभ्युदय-श्राद्ध^b -द्धम् वैश्रौ १, ४ : ७; वैगृ २, १ : ३; -द्धे वैगृ ६, २ : ११.

अभ्युदि(द-इ)त, ता^c -तः आपश्रौ १०, १५, ६; वीश्रौ; -तम् शाश्रौ २, ७, ७XX कौस्; -तयोः शाश्रौ ३, १९, ९७; -ता वीश्रौ १३, १ : ७; -ताः अप ५२, १४, २; ३; -ते आश्रौ ३, १२, १७; १३, १३; शाश्रौ; आपश्रौ ९, ४, ७^d; हिश्रौ १५, १, ७७^d.

अभ्युदित-मात्र- -त्रे आमिगृ २, ४, ११ : ५.

अभ्युदिते(त-इ)ष्टि^e -ष्टिः शाश्रौ ३, २, १; माश्रौ ३, १, १६; -ष्ट्याम् वीश्रौ २०, १ : ४६.

अभ्यु(मि-उ)दी(द्/ई)द्, अभ्युदीर्यते अप ६४, ४, ८.

अभ्यु(मि-उ)द् (द्/ऊ)द् (वहने), अभ्युद्बुहति हिश्रौ १४, १, ३७; आपश्रु १४, ३.

अभ्यु(मि-उ)दे(द्-आ/इ), अभ्यु-दायन्ति आपश्रौ २०, २२, ९; माश्रौ २, ३, २, १०.

अभ्युदे(दा-इ)त्य माश्रौ १, २२, १०; आपध २, ७, १३; १५; हिध २, २, ३२; ३४.

अभ्यु(मि-उ)द्/दिश, अभ्युद्दिशति मागृ १, ९, १३; १७, ५.

अभ्यु(मि-उ)द्/दृष्ट > अभ्युद्-दृष्ट -ष्टानि अप्राय २, ३; -ष्टे काश्रौ २५, ४, ४४.

अभ्युद्दृष्टे(ष्ट-इ)ष्टि^f, -ष्टिः शाश्रौ ३, ३, १.

अभ्यु(मि-उ)द्/दृ > अभ्युद्-दृत्य वैश्रौ ५, ३ : १५.

अभ्युद्घृ(मि-उद्/ह), अभ्युद्धरामि अप्राय १, २; अभ्युद्धरेत् काश्रौ २५, ३, ११; अप्राय १, ११^५; २; ७; ५, ४; अभ्युद्धरेगुः आपश्रौ ९, १०, ११; १२; वीश्रौ १३, ७ : ११; माश्रौ ९, १४, ३; माश्रौ ३, ३, ४; वैश्रौ २०, १८ : ५; हिश्रौ १५, ३, २१.

अभि...उद्ध्रियते वीश्रौ १३, ७ : १५; हिश्रौ १५, ३, २३; अभ्यु-द्ध्रियन्ते निस् ३, १ : २२;

अभ्युद्ध्रियेत वीश्रौ १३, ७ : १५; हिश्रौ १५, ३, २३.

अभ्युद्-धरन् -रताम् वाध १५, १८.

अभ्युद्-धत्, ता^c -तः कौस् ७३, ४; -तम् अप्राय १, २^२; -ता वीश्रौ १३, १ : ६; -ते शाश्रौ ३, ४, १.

अभ्युद्-धत्त्य शाश्रौ २, १४, ५; ४, १२, २; कौस् ७४, ११.

१अभ्युद्य अभि/वद् द.

२अभ्युद्य अभ्यु(मि/उ)द्, न्द् द.

अभ्यु(मि-उ)द्/यच्छ, यम्, अभ्युयच्छति वाश्रौ २, १, ३, ३.

अभ्युद्-यत- -तम् आपध १, १९, ११; हिध १, ५, ११३; -तान् विध ५७, १०; , ११.

अभ्युन्दन- अभ्यु(मि/उ)द्, न्द् द.

अभ्यु(मि-उद्/न्)न्/नी, अभि... उन्नयन्ति आपश्रौ २२, १०, ११; ऋभ्यभि...उन्नयन्ति काश्रौ २२, १०, ५; लाश्रौ ८, १०, १२;

ऋभि...उन्नय आपश्रौ १३, २१, ३; हिश्रौ ९, ५, ४२; ऋभ्यु-न्नयध्वम् काश्रौ ९, ११, ३; अभ्यु-न्नयेत् हिश्रौ १६, १, ४९; अभ्यु-न्नयेत् आपश्रौ १४, १८, ३; माश्रौ ३, ६, १८; २१; अभ्युन्नयेयुः हिश्रौ १५, ५, ५; लाश्रौ ८, १०, १२.

अभ्युन्नीयेरन् वीश्रौ २३, ८ : ३०.

अभ्युन्-नायम् आपश्रौ १४, २४, ७; २७, १.

अभ्युन्-नीत- -तम् शाश्रौ १३, १२, ७; -तान् वीश्रौ २१, २० : ९; १०; वैश्रौ १५, ३३ : ६; हिश्रौ ९, ३, ५०; -तानान् माश्रौ २, ४, १, २८; हिश्रौ ८, ७, ६४; ९, २, ७^३; -तेभ्यः हिश्रौ ९, २, ७; -तेषु मीस् ३, २, २९; -तैः वैश्रौ १५, ३० : ९.

अभ्युन्-नीय काश्रौ २५, १२, २५; आपश्रौ ९, ५, ९; ६, ४XX; वीश्रौ.

अभ्यु(मि-उ)प/कृ > अभ्युप-कृत- -ताः निस् ८, ३ : ४; ८ : ३४.

a) भाप. (वाध १, ४६), नाप. (वृद्धि-श्राद्ध-). यथाक्रमं स्वार्थं च तदस्यप्रयोजनमित्यर्थं च उक्तञ्चौ प्र.। b) मलो. कस.। c) नाप. स्त्री. (इष्टि-विशेष-).। d) पाप्मे. पृ १६१ ० द्र.। e) नाप.। कस.। f) 'द्र' इति पाठः? यनि. शोधः (तु. काश्रौ २५, ४, ४४ C. च)। g) 'व्यु' इति पाठः? यनि. शोधः।

अभ्यु (भि-उ) प √ गम् > अभ्युप-
गम्य शंभ ३९०; ४४२; बौध २,
२, १५.

अभ्यु (भि-उ) प √ दिश, अभ्युपदि-
शन्ति बौधौ २६, ७ : ३; बौशु
३ : ३०.

अभ्यु (भि-उ) प √ धा, अभ्युपदधाति
आपश्रौ १६, १५, ८; १७, ३, ७;
१०; बौधौ १, ८ : ६; हिश्रौ
११, ६, ६; १२, १, ४४.

अभ्युप-यत्- अभ्युपे (प √ इ) द्र.

अभ्यु (भि-उ) प √ विश, अभ्युप-
विशति पाग १, ३, ८; भाग
२, २९ : ८. अभ्युपविशामि हिग
१, १२, ४^१; अभ्युपविशोत्
भाश्रौ ११, १८, ९.

अभ्यु (भि-उ) प √ सिच् > अभ्युप-
सेक- -रुम्^१ आपश्रौ १०, ६, ७;
भाश्रौ १०, ४, ६; हिश्रौ १०, १, ४०.

अभ्यु (भि-उ) प √ ह्, अभ्युपहरेयः
अप्राय २, ९.

अभ्युपा (भि-उप-आ) √ कृ, अभ्यु-
पाकरोति आपश्रौ १२, २९, ५.

अभ्युपाकुर्यात् आपश्रौ १४, २९,
१; माश्रौ ३, ६, १९; हिश्रौ १५,
७, १४; अप्राय ६, ३.

अभ्युपा-कारम् बौधौ १४, २६ :
१२; १५, ६ : १७; २१ : २;
५; २४ : १६.

अभ्युपा-कृत- -ते शाश्रौ १३, १२,
११; काश्रौ ३२ : २२.

अभ्युपाकृत-चमस^१- -सम् काश्रौ
२५, ११, २४.

अभ्युपा (भि-उप-आ) √ वृत्, अभ्यु-
पावर्तते बौधौ १०, ५९ :
२५; २५, ३२ : ३८; †अभ्यु-

पावर्तस्व बौधौ १८, ३० : २.
अभ्युपावर्त्यति बौधौ १८, २९ :
१६.

अभ्यु (भि-उ) पा(प-आ) √ श्रि, अभ्यु-
पाश्रयेत् आपश्रौ १, २९, १; हिध
१, ७, ५७.

अभ्यु (भि-उ) पे (प √ इ), अभ्युपैति
माश्रौ ५, २, १६, २; माग;
अभ्युपयन्ति द्राग २, ५, २१;
अभ्युपैमि काश्रौ ४, १५, ५†;
अभ्युपेयात् काग १, २२; वाग
६, १२; ७, ९; १५; वाध; अभ्यु-
पेयुः आश्रौ १२, ६, २८; पाग
२, १४, १९; अप्राय ३, ५.
अभ्युपेयाय बौधौ १८, १३ :
११; ४५ : ८.

अभ्युप-यत्- -यन् बौधौ १०, १४ : १.

अभ्युपा (प-आ) य- -यः गौध ११,
२५.

अभ्युपे (प-इ) ल्य आशिग ३, ५, ५ :
४; बौध ३, ३, १६; या १४,
३४. †

अभ्युपे (प-ई) यिवस्- -युपाम ऋपा
११, ४९.

अभ्युपो (भि-उप √ उ) क्ष, अभ्युपो-
क्षति कौग ५, ५, ६.

अभ्यु (भि-उ) पो (प √ उ) प् (दाहे),
अभ्युपोषेत् बौधौ १४, २६ : १८.

अभ्युपो (भि-उप √ ऊ) ह् (प्राणो)^१,
अभ्युपोहति शाश्रौ १७, १०, १४.

अभ्युस- , अभ्युप्य अभि √ वप् द्र.

अभ्यु L, भ्यू | व^१- (> अभ्यु L, भ्यू |
पीय- , अभ्यु L, भ्यू | ल्य- पा.)
पाग ५, १, ४.

अभ्यु (भि √ ऊ) ण् > अभ्यु (भि-ऊ) ण्वा
(न >) ना- -ना या ११, ४९ †.

अभ्यु (भि √ ऊ) ह्^१ (प्राणो), अभ्युहति
काश्रौ २, ४, ३७; २५, १०, १९;
माश्रौ १, २, ३, ८; ३०; २, १,
४, ४; ४ २, २१; वाश्रौ १, ३,
१, २७; २, २३; हिश्रौ १, ६,
५३; १२, ८, १२; आपश्रु १०,
९; हिशु ३, ४८; ४, ४४.

१अभ्यु (भि-ऊ >) ङा- -ङाः बौधौ
२५, १० : २१.

अभ्युढ-त (र >) रा- -राः बौधौ
२५, १०, २१.

अभ्यु (भि-ऊ) ह- -हः बौधौ १५,
१ : १६; मीम् १०, १, ५६;
-हम् बौधौ १५, ६ : ५; -हेत्
बौधौ १५, ६ : ९.

१अभ्यु (भि-ऊ) ह्य वाश्रौ १, ३, १,
२८.

अभ्यु (भि √ ऊ) ह् (वितर्के), अभ्युहति
या १३, १२; अभ्युहेत् वाश्रौ
१, १, ३, ६.

२अभ्यु (भि-ऊ) ङ- -ङः, -ङम् या
१३, १२.

अभ्यु (भि-ऊ) हितव्य- -व्याः या
१, ३.

२अभ्यु (भि-ऊ) ह्य गौध ११, २६.

अभ्यु (भि-ऊ) ह्य- -ह्यम् काग ३
४१ : १३; -ह्याः वृदे २, १२२.

अभ्यु (भि √ ऋ), अभ्यर्ति बौधौ १३,
२७ : ११ †.

†अभ्यु (भि √ ऋ) प्, अभ्यर्ष अप
४८, ११; निघ ३, २१.
अभ्यानर्षत् या २, ११.

अभ्ये (भि आ √ इ), †अभि... आयति
कौस् ४६, ५५; अप १, ३६, ७.

अभ्यैति आपश्रौ ६, २५, ७; १३,
५, ९; १८, ४, ५; १९, २०, १०;

a) पाभे. पृ २९६ e द्र. । b) गस. उप. घञन्तम् । वा. किवि. । c) कस. । d) उपसृष्टस्य धा.

अभिनिवीडने [बन्धने] वृत्तिः । e) अर्थः व्यु. च ? । f) उपसृष्टस्य धा. आच्छादने वृत्तिः ।

बौश्रौ; अभ्यायन्ति बौश्रौ १५,
२२: १६; २४: १९; २९:
१७†; ३०: १३; २६, ११: ३;
†अभ्यैमि आपश्रौ १३, ५, ९;
बौश्रौ ८, ५: १८; वैश्रौ १६,
६: १०; हिश्रौ १०, ४, ३७;
†अभ्येहि अशां २, २; ३, ३-५;
४, १; ५, १; २; अभ्येतम् वाधूश्रौ
४, २: ५†; अभ्येयात् गोश्र १,
५, २३; अभ्येयाव^१ वाधूश्रौ ४,
२: ५.

अभ्ये(भ्या-इ)त- -तः आपध १, ८,
७; हिध १, २, ९५.

अभ्ये(भ्या-इ)व्य वैश्रौ २, १०:
८XX; हिश्रौ.

†अभ्ये^१ वैताश्रौ ३४, ९.

अभ्ये।भ्यो।व^१-(>अभ्ये।भ्यो।
वीय-, अभ्ये।भ्यो।व्य-पा.)
पाग ५, १, ४.

√अभ् पाधा. भ्वा. पर. गतौ ।

१-२अभ- √*अप् द.

३अभ^१-(>आभ्य- पा.) पाग ४,
१, १५१.

अ-अभ्रंश्यमान- -नान् काश्रौ २०, ५,
१६.

अभ्रक- पाउ २, ३२.

अ-भ्रातृ^१- -†तरः या ३, ४४; -ता
सु २१, ४; या ३, ५†४.

अभ्रात्री- -त्रीम् या ३, ५.

अ-भ्रातृ(क>)का^१- -का वाध १७,
१६; या ३, ५; -का: या ३, ४;
-काम् वाध १७, १७; शंघ
२९०; गौघ २८, २०; -काया:
या ३, ४; ५.

†अ-भ्रातृ(हन् >)घ्नी- -घ्नीम्
आपमं १, १, ३; बौश्र १, १, २४;
वैश्र ३, २: ५; कौस् ७६, ३२.

अ-भ्रातृम(त >)ती-वाद^१- -दः
या ३, ४.

अ-भ्रातृव्य,व्या^१- -व्यः आश्रौ ७,
८, २†; शांश्रौ १०, १९, २;
†वैताश्रौ ४०, ४; ४१, २०;
साश्र १, ३९९†; अश्र २०,
११४†; उनिस् ४, ४१†; -व्या
आश्रौ ८, १३, १३; -व्या:
-व्याम् शांश्रौ १०, १९, २.

√अभ्राय √*अप् द.

अभि,भी^१- पाउना ४, ६८; -भि:
काश्रौ १६, २, ५; †आपश्रौ;
वैश्रौ १३, १७: ८^१; -भिभि:
माश्रौ ४, १, २२; -भिम् काश्रौ
६, २, ८XX; आपश्रौ १५, १५,
१^१; हिश्रौ २४, ६, १२^१; -भिया
आपश्रौ १५, १, १०; १६, ३, १;
बौश्रौ; -भी: माश्रौ ४, १, ८;
बौपि १, १५: २; हिपि १:
३; -भीम् आपश्रौ १७, २६,
१४; विध ५०, ३४; -भ्रे: आपश्रौ
७, ९, ७; १४, ५, १६; हिश्रौ;
-भ्या काश्रौ १६, २, २३XX;
वाश्रौ.

अभि-दैवत^१- -तम् शुश्र ४, ७२.

अभि-वत् काश्रौ १७, १, २१.

अभ्य(भि-ञा)प्र^१- -प्राभ्याम् बौश्रौ
९, १५: २४.

अभ्या(भि-ञा)दान^१- -नात् बौश्रौ
२०, ६: २९.

अभ्यादान-प्रभृति- -तीन् बौश्रौ

२६, २८: १; २.

अभ्या(भि-ञा)दि- -दि काश्रौ ८,
५, १; २८; ८, १; १९, ३, १.

अभ्यु(भि-उ)पशया^१- -ये काश्रौ
२६, २, ३४.

अभ्रित-, अभ्रिय- √*अप् द.

अ-भ्रु-कुंसा(स-आ)दि^१- -दीनाम्
पावा ६, ३, ६०.

?अभ्रेति जैश्रौका ५१.

अ-भ्रेष- -ये वैताश्रौ ३३, २६.

अभ्रघ- √*अप् द.

अभ्रव^१- पाउमो २, ३, १३३; -†भ्रव:
अप ४८, ६९; निघ ३, ३; -†भ्रवम्
अप ४८, ७५; निघ १, १२.

अम् पाग १, १, ३७; ४, ५७.

√अम्^१, पाधा. भ्वा. पर. गत्यादिषु,
अमति अप ४८, १९^३; अमिति,
अमीति पा ७, २, ३४.

१अम^१- पाग ६, १, १९९; -†म:
आश्रौ २, ९, १०^३; कौश्र ३, ५,
२^३; शांश्र ३, ८, ५^३; गोश्र ३, ८,
१८; द्राग ३, ३, १५; कौस् ७४,
२०^३; अश्र १३, ४(५); -†मम्
या १०, २१४.

†अम-वत्^१- -वते भाग ३, १२:
१८; -वान् अप ४८, ११५;
निघ ४, ३; या ६, १२४.

अमत- पाउ ३, ११०.

१अमति- पाउ ४, ५९; -†ति:
आश्रौ ४, ६, ३; शांश्रौ ५, ९,
७; बौश्रौ ६, १४: १५; अप
५४८, ७९; ११५; ११६; निघ
३, ७; ४, ३; या ६, १२४;
-†तिम् आश्रौ २, १०, ७;

a) अभ्येयावत् इति पाठः ? यनि. शोधः (तु. c.) । b) पाठः ? । सपा. आपश्रौ २१, २०, ३ वाश्रौ ३, २, ५, ४ मध्ये इति पाठे. । c) अर्थः व्यु. च ? । d) व्यप. । व्यु. ? । e) वैप १, परि. च द्र. । f) विप. । वस. । g) षस. पूष. तस. । h) सप्र. अभि: <> अभिम् इति पाठे. । i) षस. । j) द्वस. । k) तस. > वस. > वस. । l) पावा २, ४, ८१ परामृष्टः द्र. ।

आपश्रौ १७, २२, १^०.
 १अमत्र^०- पाउ ३, १०५; -ऋत्रः
 निघ ४, ३; या ६, २३०.
 अमनि- पाउ २, १०२.
 १अमस^०- पाउना ३, ११६.
 १अमित-, आन्त- पा ७, २, २८.
 ✓अम्^०, पाधा. चुरा. उभ. रोगे ।
 २अमस- पाउना ५, २६.
 १अम- ✓अम् (गत्यादिषु) द्र.
 ३२अम->अमा^० ऋश्रौ २, ९, १०^१;
 ५, ५, १९; शांश्रौ ८, २, ९; १२, १४, ४^२; आपश्रौ ६, १७, १०^१,
 ९, ११, १५; भाश्रौ ६, ४, ४^१; ९,
 १५, ६; वैश्रौ २०, २१ : ९;
 हिश्रौ ६, ६, १६^१; १५, ३, ३६;
 आश्रौ ४, ३, १८; कौश्रौ १, १६,
 २०; ३, ५, २^१; शांश्रौ ३, ८, ५^१;
 ९, ४; कौश्रौ ७७, २०^१; ८१, १९;
 ८३, ८; शुश्रौ ३, ७४^१; अश्रौ ११,
 ५^१; अपश्रौ ८, ८९; निघ ३, ४;
 या ५, १^१; ११, ४६^१; तैत्रा
 १२, ७^१.
 अमा ✓कृ, पाग १, ४, ७४;
 अमाकरवं शांश्रौ १६, २२, २८;
 अमाकुर्वीत शांश्रौ १६, २२, १९;
 अमा...कुर्वीत शांश्रौ १, २४,
 १४; अमाकुर्वीरन् आपश्रौ ६, १०,
 ७.
 अमा-का(र्ये >)र्या- -र्या
 शांश्रौ १६, २२, २०.
 अमा-कृत्य पा १, ४, ७४^१.
 ऋश्रौ-श्रौ^० -श्रुः आश्रौ ७,
 ८, २^१; वृदे ७, ४८.

अमा-स्य^०- पा ४, २, १०४; -स्यः
 बौश्रौ ६, १४ : ११^१; हिश्रौ ७,
 २, ३७^१; अपश्रौ १, ३६, १; ५३, ५,
 ३; ७२, ६, २; शंश्रौ ३५०; -स्यम्
 हिश्रौ १, १४, २; अपश्रौ ५३, ५, ३;
 ७२, २, ८; -स्याः शांश्रौ ४, १८;
 ५^१; काश्रौ २१, ३, ७; आपश्रौ
 ८, ५, ४१; १०, ७; ११, ८; १७,
 १; ९, ११, २३; ११, १७, ७;
 माश्रौ १, ७, ४, १; ५, २७; वैश्रौ
 ९, १० : १०; ११ : ६; १४, १४ :
 ११; १५ : १; ९; हिश्रौ ५, ५, २;
 ७, १, ७५; ८, १६; २२; २९;
 द्राश्रौ १३, ३, १; लाश्रौ ५, ३,
 ६; आश्रौ ४, २, ९; पाश्रौ २, १६,
 ४; आमिश्रौ ३, ५, ३ : ३; ४ : ७;
 १५; २३; ६, २ : १; ८, १ :
 २०; बौश्रौ १, ५, ८; बौषि १, ३ :
 ३; १७; २४; ३१; ९ : ११;
 १४ : १८; ३, ४, २४; हिश्रौ १,
 १४, ४; हिपि १ : १४; १४ :
 १२; २१ : १८; २३ : ८; २८;
 हिध २, ३, ४१; -त्यान्
 आपश्रौ ११, १६, १३; १५;
 माश्रौ २, २, ४, २२; वैश्रौ १४,
 १४ : १०; हिश्रौ ७, ८, १५; द्राश्रौ
 १३, १, १४^१; लाश्रौ ५, १, १२^१;
 आश्रौ २, १, ११; ४, ६, ८; १०;
 ८, ३३; आमिश्रौ २, ६, ३ : ५५;
 आपश्रौ २, २५, १०, बौध २, ५,
 २९^१; हिध २, ५, १८९; सुधप
 ८८ : ९; -त्यानाम् आपश्रौ १३,
 ५, ६; आपश्रौ २३, ९; अप ५०,

५, २; ७१, १८, ३; ७२, ४, ५;
 -त्ये अप ६४, १०, ६; -त्येभ्यः
 भाश्रौ ८, १२, १५; वाश्रौ १, ७,
 ३, १४; हिश्रौ ५, ३, २७; आश्रौ
 २, १, ८; आमिश्रौ ३, ११, ४ :
 ३३^१; बौश्रौ २, ११, ३४^१; -त्येषु
 बौश्रौ १४, १८ : २१; अप ७२,
 ६, १; -त्यैः वाश्रौ १, ७, ४, ६४;
 गोश्रौ ४, ८, ६.
 आमिश्रौ^१ -त्यम् बौश्रौ
 २४, २२ : १३; १५; -त्यात्
 बौश्रौ २, ८ : १८; -त्ये बौश्रौ
 २, ११ : १७.
 अमात्य-परनी- -नीः आमिश्रौ
 २, ६, ३ : ५५; बौध २, ५, २९^१;
 -ऋनीभ्यः आमिश्रौ ३, ११, ४ :
 ३३; बौश्रौ २, ११, ३४.
 अमात्य-पीडा- -डा अप
 ५१, २, ४.
 अमात्य-भेद- -दः अप ७२,
 ६, २.
 अमात्य-वत्- -वान् या ६,
 १२.
 अमात्य-डोम^१- -माः बौश्रौ
 २, ११ : २३; -मान् बौश्रौ २,
 ११ : १७; १३ : ६; २९, १३ :
 १९; वैश्रौ १, ४ : ५; बौश्रौ १,
 ४, ३२.
 अमात्यो(त्य-उ)त^१- -ते
 माश्रौ २, ३, १, १८.
 अमा-वसु^१- -सुः बौश्रौ १८,
 ४४ : २३; -सुम् बौश्रौ १८,
 ४४ : २०.

a) पाभे. वैप १, १६१५ e द्र. । b) वैप १ द्र. । c) नाप. (उदक-) । d) पावा ६, ४, ९२ परामृष्टः द्र. (तु. वैप १, ६७५ f) । e) नाप. (गृह्, अमावस्या- प्रमृ.) । शिष्टं वैप १ द्र. । f) पाभे. वैप २, ३३६. अपामः मंत्रा २, १, १४ टि. द्र. । g) गत्यभावे अमा कृत्वा इति (तु. शौ ४, १८, ३) । h) वैप १, परि. च द्र. । i) नाप. (लौकिकाग्नि-) । स्वार्थे अण् प्र. । j) सस. । k) तुस. उप. < ✓वे [तन्नु- संताने] । l) व्यप. (पुहुरवः-पुत्र-) । व्यु. ? ।

आमावास्य^a-वम् बौध्रौ
 १८,४४ : २४.
 अमा-वस्या^b- पा ३,१, १२२^c;
 -स्याम् काण्ड ४, १७; ९, ११;
 -स्यायाम् काण्ड ४२ : ९^d.
 अमावस्य- पा ४,३,३१.
 अमावस्यक- पा ४,३,३०.
 अमा-वास्य^e- पा ३, १, १२२;
 पाग ४, ३, १६; -स्यया आपथ्रौ
 २४, २, १९; काथ्रौसं ६ : ३१;
 हिथ्रौ १,१,७२; -स्याशाथ्रौ २,
 ५,६; आपथ्रौ २,२०,५; ३,१६,
 ११; १६,३२,४१; २०,१,४; ६;
 ८, ३; २४, २, २४; काथ्रौसं;
 या ११,३११; -स्याः बौध्रौ १६,
 १२ : ८; विध ७६, १; -स्याम्
 आथ्रौ ३, १०, १०; शाथ्रौ ३,
 १०,५; आपथ्रौ; -स्यायाः शाथ्रौ
 १३,१९,३; १५,१२,३; आपथ्रौ;
 निस् २,५ : १२^e; पा ४,३, ३०;
 -स्यायाम् आथ्रौ १,३,१०; १३;
 ५,३५; २,१,२; ६, १; १४, ८;
 १०; १२, ६, १५-१७; शाथ्रौ;
 माथ्रौ १०,२,९; वाथ्रौ ३, २,
 १,११^f; वैथ्रौ २०, ३१ : ७^g;
 आज्यो ६,६^h; -स्यायै आपथ्रौ
 २, २०, ५१; बौध्रौ १, १७ :
 १६१; १२, ७ : ३; २० : २१;
 १८,५१ : ६; ५३ : १२; २४.
 २० : १२; माथ्रौ २,१८,१६१;
 माथ्रौ १, ३, २, २१; वाथ्रौ १,
 ३, ४, ३४; हिथ्रौ २,५,४५१;

आमिगृ १,७,३ : २८१; -स्यासु
 शंघ ११३; आपघ १, ९, २८;
 विध ७३,७; हिध १,३,२९; -स्ये
 आथ्रौ २, १४, ७; शाथ्रौ १,३,
 ४; ६; आपथ्रौ ३, १४, १४;
 १७, ५; बौध्रौ २४, २० : ८;
 हिथ्रौ २,६,४; ५; या ११,३१;
 -०स्ये माथ्रौ ६,२,३,८.

आमावास्यⁱ- पा ४, ३,
 ३०; पाग ४, ३, १६; -स्यः
 वैताथ्रौ १२, १; कौम् ६, ३५;
 -स्यम् शाथ्रौ ३, २, ८; ३, ८;
 काथ्रौ ४, ५, २५; २५, ७, ४;
 आपथ्रौ; गोमृ १,९,१३^j; -स्यस्य
 आथ्रौ १२, ६, १६; बौध्रौ २८,
 १२ : ११; १२; -स्यान् आथ्रौ २,
 १४, १३; -स्यानि शाथ्रौ ३, ८,
 १६; ११, २; बौध्रौ १८, ५३ : १८;
 -स्ये शाथ्रौ ३, ३, १; काथ्रौ २५,
 ४, ३७; काठथ्रौ ७२; लाथ्रौ १०,
 १२, ५; -स्येन आथ्रौ २, १४,
 १३; १२, ६, १७^k; शाथ्रौ १,
 ३, २; १३, २९, ७; काथ्रौ १५,
 १, १६; १६, ४, २७; २५, ४,
 ४४; आथ्रौ; -स्यैः बौध्रौ २०,
 १ : ४७.

आमावास्य-काल^k-

-लात् बौध्रौ २८, ८ : १६.

आमावास्य-स्थान^k-

-नम् १०, १५, ६.

अमावास्य- पा ४, ३, ३१.

अमावास्यक- पा ४, ३, ३०.

अमावास्य(स्या-अ)त्यय^k- -के
 कप्र २, ९, ८^l.

अमावास्य-देवताक^l- -कम् अत्र
 ७, ७९.

अमावास्य(स्या-अ)न्त^l- -न्तम्
 बौध्रौ २४, १७ : २.

अमावास्य-पौर्णमासी- -सीषु
 बौध्रौ २३, १५ : ५.

अमावास्य-प्रसव^l- -त्रे लाथ्रौ
 १०, २०, १८.

अमावास्य-विकार^k- -रः शाथ्रौ
 १, १६, १३; २, २, ८; ३, १३; ५,
 २९; ३, १, २; २, ६; ३, ६; ११,
 १२; ८, १२, १३; -रे मीस् १०,
 ८, ५४.

अमावास्य-सं(स्था >)स्थ^l-
 -स्यौ बौध्रौ २४, २० : १; बौधि
 १, १ : ७.

अमावास्य(स्या-अ)ष्टम^k-
 -मे कप्र २, ६, ५.

अमावास्य-हविस^k- -विः
 मीस् १०, ८, ५२.

अमो(मा-उ) त^l- -तम् आपथ्रौ
 १०, २६, १२; माथ्रौ १०, १७,
 १८; कौम् ६२, २३; ६४, २४,
 अत्र ९, ५१; -ते हिथ्रौ ७, २,
 ७७.

१३अम^m- -मः आपथ्रौ ९, २, ३ⁿ; बौध्रौ
 २९, १० : २३ⁿ; माथ्रौ ९, ३, १ⁿ;
 वाथ्रौ ४, ३३ : १; ४^o; वैथ्रौ
 २०, ३ : ११; हिथ्रौ १५, १,
 ४१ⁿ; २१, २, ४६ⁿ; आपमं १,

a) विप. । तस्येदमीयः अण् प्र. । b) धैप १, परि. च द्र. । c) °स्यत् इति तान्तो निर्देशः स्वरार्थः ।

d) °स्याम् इति पाठः ? यनि. शोधः । e) °स्यया इति पाठः ? यनि. शोधः । f) आमा° इति पाठः ? यनि.

शोधः । g) °स्याम् इति पाठः ? यनि. शोधः । h) °स्याम् इति पाठः ? यनि. शोधः (तु. सकक्षं पौर्णमास्याम्

इति) । i) विप. (यज्ञ-, हविस्- प्रसृ.) । j) सप्र. आमावास्यम् <> अमावास्यत्यये इति पाभे. ।

k) षस. । l) विप. । बस. । m) वैप १, ३८० h द्र. । n) अमोऽहम् > अमूहम् इति संघिरार्थः द्र. ।

पाभे. वैप १ परि. द्र. ।

३, १४ ^३ ; आग १, ७, ६ ^२ ; कौग १, ८, १८ ^२ ; शांग १, १३, ४ ^२ ; पाग १, ६, ३ ^२ ; आमिग १, ५, ४: ३७ ^३ ; ३८ ^३ ; ६, ३: २९ ^३ ; काग २५, २७ ^२ ; वौग १, ७, ४२ ^३ ; भाग १, २०: १ ^३ ; माग १, १०, १५ ^३ ; वाग १४, १३ ^२ ; हिग १, २०, २ ^३ ; जैग १, २१: १३; कौस् ७९, १०; अत्राय ४, २; अत्र १४, २.	अम(ति>)ती-वन् ^१ - वा ऋप्रा ९, १७ ^१ .	३, १२२; पावा ४, २, १००. अमनुष्य-ग्रहणा (ए-आ) नैथक्य- क्यम् पावा ४, २, १००.
अ-मकार ^२ - रे ऋप्रा ९, १०; १३, २५.	अ-मत्त - त्तः वाधूश्री ४, ७५: २.	अ-मनुष्य-कर्तृक ^१ - के पा ३, २, ५३.
अ-मङ्गल्य ^१ - ल्यः जैश्री १८; -ल्यम् माग १, १३, ९.	१अमत्र - √अम् (गत्यादिषु) द्र.	अ-मनोह, ह्रा - ह्रम् कश्री २५, ११, २०; आग ३, ६, ५; ७; -ज्ञाः आग ३, १०, ९.
अ-मज्जत् - जन्तौ काश्री ५, ५, ३०.	२अमत्र ^१ - त्रम् आमिग १, १, ४: १७; हिग १, ७, ११; आपध १, ३, ३६; हिध १, १, ११२; या ५, १६; तैप्रा १७, ८ ^१ ; -त्राणाम् बोध १, ५, २८; -त्रे बोध १, ५, २४; -त्रेण आपध १, ३, २५; हिध १, १, १००; -त्रेभिः या ५, १६; -त्रेभ्यः आपध २, ४, २३; हिध २, १, ७६; पा ४, २, १४; -त्रैः या ५, १.	१अ-मन्त्र - न्त्राः आश्री २४, १, ३५; हिश्री १, १, १३; -न्त्रे पा ३, १, ३५.
अ-मणिव ^१ - वः शाश्री १२, २१, २ ^१ क ^१ .	अ-मत्सर - रान् अप ७०, १०, ५.	अमन्त्र-त्व - त्वम् मीस् २, १, ३२; ३, २, २७.
अ-मण्डल ^२ - लः हिग ६, ६० ^१ ; -लम् आपशु २१, २; -लौ अप २३, ५, १.	अ-मत्सरिन् - री आमिग २, ७, १०: ११; अप ६९, ८, ५; शंघ २४४.	२अ-मन्त्र, न्त्रा ^२ - न्त्रम् ^३ जैग १, ११: २३; अशां २१, ५ ^१ ; -न्त्राः बोध १, ५, ९४; -न्त्राणाम् वाध ३, ५; बोध १, १, १०; -न्त्राणि बोध १, १: १०; -न्त्रान् गोग ३, १०, ११; -न्त्रासु आश्री १, १२, ५; आमिग १, १, २: १; भाग १, ४: १४; हिग १, ३, ३; -न्त्रेण आमिग ३, १०, १: ८; वौपि ३, ५, २ ^३ .
अमत - १अमति - √अम् (गत्यादिषु) द्र.	अ-मत्थमान - ने शाश्री ३, १८, १३.	अ-मन्त्रक, का ^२ - कम् वैग ५, १३: ५; ६; ६, १७: १०; ७, ३: ६; -काः विध २७, १३; -काणि वैग ६५: ५.
२अ-मति ^१ - तये ऋप्रा २, ४० ^१ ; -तिः हिश्री ६, ५, १५ ^१ ; -तिम् आश्री ४, ६, ५ ^१ ; भाश्री ४, ९, ३ ^१ ; हिश्री ६, २, १६; वृदे ४, ११४; -त्या बोध २, १, ६; १८; २०; ३८; गौध २३, २; ३४.	अ-मद ^२ - दाः अप ७० ^२ , ११, ५.	अ-मन्त्र-दर्शन - नान् मीस् १०, ३, १७ ^० .
अमति-गृहीत ^२ - तस्य कौस् २८, १२.	अ-मद्र ^२ - द्राणाम् पा ७, ३, १३.	अ-मन्त्र-वत् - वत् कप १, १०, १.
अमति-पूर्व - र्वम् शंघ ३९, २.	अ-मधु-मांसा(स-आ)शिन् - शी हिग १, ८, २ ^१ ; द्राग २, ५, ११.	अ-मन्त्र-विद् - विन् कौस् ७३,
अमति-पूर्वक ^२ - के बोध २, १, ६.	अ-मध्य - ध्ये निस् १०, ३: १४; १५.	
	अ-मनः प्रयोग ^१ - गम् तैप्रा २३, ६.	
	अ-मनश्-शङ्क ^१ - ङ्कम् वैग १, ३: १.	
	अमनि - √अम् (गत्यादिषु) द्र.	
	अ-मनुष्य - न्यः आश्री १२, ९, १८; -प्याणाम् काश्री १, ६, १७;	
	-न्ये पा ४, २, १००; १४४; ६,	

a) (अमोऽहम् >) अमहम् इति संधिरार्षिः द्र. (पाभे. वैप १ परि. द्र.) । b) विप. । बस. । c) विप. (अग्नि-), नाप. (माग.) । तस. । d) विप. । तस. उप. मणि- + वः प्र. (पावा ५, २, १०९) । e) पाभे. वैप १ परि. द्र. । f) पाठः? 'लम् इति शोधः । (तु. आपशु-) । g) वैप १, परि. च द्र. । h) पूष. = त्रिवर्गशून्यबुद्धि- । विप. । तुम. । i) सप्र. अशुद्रोच्छिष्टी, अमधुमांसाशी <> अशुद्रोच्छिष्टमधुमांसाशी इति पाभे. । j) विप. (उपांशु-) । बस. > षस. । k) बस. > षस. । वा. किवि. । l) तस. > बस. । m) वा. किवि. । n) मन्त्रेण इति R. । o) अमन्त्रत्वद् इति जीसं. प्रयासं. च ।

१०१.
अ-मन्त्र-संस्कृत- -ताः आमिष्ट ३,
 १०, १ : ३.
†अ-मन्द^a - -न्दान् ऋञ्च २, १, १२६;
 वृदे ३, १५५; या ९, १००.
अ-मम^b - -मः वाघ १०, ६.
अममि^c - -मिम् कौसू ५३, २; १५;
 ५४, १९.
अ-मर, रा^d - पा ६, २, ११६; -रा
 विध ३०, ४६; -रैः बौध ४, ८,
 १२.
अमरा(र-आ)दि^e - -दीनाम् कप्र ३,
 ७, १७.
अमरकण्टक^f - > क-पर्वत- -ते
 विध ८५, ६.
अ-मरण-धर्म^g - -मार्गौ या २,
 २०.
अ-मरिणु- -०ण्वः भागृ १, ७ :
 १३^h.
अ-मरु(त>)च्-छब्दⁱ - -न्दानि
 आश्रौ ७, १२, २.
अ-मरु-परिहित^j - -तम् गोश्र ४,
 ७, ८.
†अ-मर्त्य^k - -त्यैः आश्रौ २, १, २१;
 २६; ४, १०, ३; ८, ६, ३; आपश्रौ
 ५, ८, ६; वौश्रौ २, ५ : २६; ७,
 ३ : २; २८, १ : १८; २ : २३;
 हिश्रौ ३, ३, ५; ६, ५, १५; निम्
 ८, ६ : ३९; आमिष्ट १, ५, १ : ५;

२, ४, ५ : १८; या १४, २३०;
 -त्यैम् आपश्रौ १२, १९, ५;
 वाधूश्रौ ३, ४८ : २; आपमं २,
 ११, ५; कौश्र ३, १३, १५^l; अप
 १, २६, ३; अश्र १८, ४; -त्यैस्य
 वौश्रौ ३, १८ : ३; -त्यैन् शाश्रौ
 १२, १७, ११.
†अ-मर्त्य^k - -त्यैवे^l आपश्रौ १२, ७,
 १०; हिश्रौ ८, २, ९.
अ-मल^m - -लः अप २४, ३, ४; ६१,
 १, २; -लम् अप ६८, २, २०;
 -लाः अप १३, ५, ४; विध
 ४७, १०; -लानि अप ५२, ११,
 २; -लेषु विध ९९, १०.
अमल-तलⁿ - लः अप २४, ३, ४.
अमल-द्युति^o - -तिम् अप ६८, १,
 ३४.
१अमस- √ अम् (गत्यादिषु) द्र.
२अमस- √ अम् (रोगे) द्र.
अ-महत्-पू(र्व>)र्वा^p - -र्वा पावा
 ४, १, ४.
अ-मह(त>)न्-नव^q - -वम् पा ६,
 २, ८९.
अमहय्यु^r - > आमहय्यव- -०व
 वौश्रौ २६ : ४^o.
अमहय्यवन् वौश्रौ २६ : ४^p.
अमहीय^s - > आमहीय- -०य
 आपश्रौ २४, ७, ८^q.
अमहोय-वत् आपश्रौ २४, ७, ८^r.

अ-महीयमा(त>)ना- -नाम् वौश्रौ
 २४, १३ : १०.
अमहीयु^s - -युः ऋञ्च २, ९, ६१;
 साअ १, ४७०; ४८४; ४९४;
 ४९५; ५१०; ५९२; ५९३; २,
 १३७; ४३१.
आमहीयव- -०व आश्रौ १२,
 १३, २^o; -वः ऋञ्च २, १०,
 ११८; शुञ्च ३, ६९; -यवम्^o
 छुम् १, ८ : ७; ११ : १७; २,
 ३ : १५; निम् ५, ७ : २९;
 -वात्^o निम् ७, ७ : २०.
आमहीयवा(व-अ)न्त->वान्त-
 तसः (ः) निम् ६, ९ : ४.
अमा १२अम- द्र.
अ-मांस^t - ऋञ्च १, २४, ३३;
 कौश्र १, ८, ११; शांश्र २, १५, २;
 पाश्र १, ३, २९; आमिष्ट २, ६,
 ६ : ३१; काश्र २४, २०; वौश्र १,
 २, ५३६; माश्र १, ९, २२; -सम्
 काश्रौ ४, १३, ९; ७, २, २;
 आपश्रौ ४, २, ५; ३, ७; पाश्र ३,
 १०, २६; वाश्र १७, १८.
अ-मांसक^u - -काय तैपा १६, १०१.
अ-मांसा(स-अ)शन^v - -नाः विध
 १९, १५.
अ-मांसा(स-आ)शिन- -शिभिः
 अप ३०^s, १, २; -शी काश्रौ
 २२, ७, १९; वौश्रौ ३, १३ : ५;

a) वैप १, परि. च द्र. । b) विप. । वस. । c) नाप. (श्रोषधि-विशेष- [तु. भू. XLV]) । व्यु. ? ।
 d) विप., नाप. (देवता- [बौध.]) । बस. । e) नाप. (पर्वत-विशेष-) । व्यु. ? । f) तस. > बस. ।
 g) पाभे. वैप १ परि. नमयिण्वः ऋ ८, २०, १ टि. द्र. । h) वस. > कम्. । i) विप. (अश्वसान-
 L=आवास-) । तस. > तृस. । j) मर्त्यम् इति पाठः? यनि. शोधः (तु. पाभे. वैप १ परि. अदाभ्यम्) ।
 k) तस. उप. =मृत्यु- √ मृ + त्युच् प्र. उमं. (पाउ ३, २१) । l) पाभे. वैप १ परि. अमृत्यवः ऋ ३,
 २, ९ टि. द्र. । m) वस. > द्रस. । n) व्यप. (ऋषि-विशेष-) । व्यु. ? । o) सप्र. आमहय्यव <>
 आमहीय <> आमहीयव इति पाभे. । p) व्ययवत् इति पाठः? यनि. शोधः । q) सप्र. अमहय्यु <>
 अमहीय^o इति पाभे. । r) अ-म^o इति MW. । s) नाप. (साम-विशेष-) । तेनदृष्टीयः अण् प्र. । t) विप. ।
 तस. > उस. वा तस. > बस. वा ।

१८, २४ : ४; २४, ३३ : १३;
२५, २९ : ९; लाश्रौ १०, १८,
११; कौश्र २, ७, ५; २३; शाश्रु
२, ११, ६; १२, ८; ६, १, २; पाश्रु
२, ८, २.

अमा(क>) का^० - का या ६, १५.

अ-मागध- -घः बौश्रौ १८, २५: ५; ८.

अ-माघ-चैत्र^० - -त्रौ वाश्रु ३, १३.

अ-माङ्-योग- -गे पा ६, ४, ७५.

अमा-जुस्- २अम-द्र.

अ-माता-पुत्र^० - पाग ८, १, ६७.

अ-मातृक^० - -कः अप २, १, ५;
-कस्य आपथ १, ११, १; हिध
१, ३, ५८.

अ-मानृ-पितृव्यभार्या-भगिनी^० -
-नीनाम् गौध ६, ७.

अमा-त्य- २अम-द्र.

अ-मा(त्रा>)त्र^० - -त्रः या ६, २२.

अ-मात्रा-लोप- -वेन लाश्रौ ६, १०,
२१.

अ-मानस- -मः कप्र ३, १, १५.

अ-मानिन्- -निनि पावा ६, ३, ४०.

अ-मानुष^० - -पम् शाश्रौ १२, १५,
११; १५, २१, १; अप ७१,
६, ३; -पाः अप ७०^३, १२, २;
-षाणाम् अप ६४, ५, १०; ७१,
१, २; -षाणि अप ७०^३, १०, ३.

अ-मानुषी^० - -षी अप ६४, ९, ९;
७१, ६, ३; -षीषु गौध २२, ३८.

अमा-म(य>)यी- -यी या ६, १२.

अ-मायु^० - -युम् आपथौ ७, १६, ६;
भाश्रौ ७, १३, ३; वैश्रौ १०, १३ :

१०; हिश्रौ ४, ३, ५२.

अ-मार्गा^० - -गैण विध ९६, ३६^६.

अमा-वसु-, अमावस्या-, वास्या-
प्रमृ. १२अम-द्र.

अ-माष^० - -षम् आपथौ ४, २, ५;
३, ७.

अमित- ✓अम् (गत्यादिपु) द्र.

अम-मित, ता^० - -ता ऋप्रा २, ७३^१.

अमित-काम^० - -मः बौश्रौ १६, ६ :
१७.

अमित-दक्षिण^० - -णः निम् ६,
१ : १४.

अमित-द्युति^० - -तिम् मु १, २.

अमित-भागि(त्>)नी^० - -नी अप
६१, १, २७.

अमित-मात्र^० - -त्रः या ६, १६.

अमित-मात्रा- -त्रायाः कौम् २७,
३०.

अमिता(त-श्च)स्त्र^० - -रे ऋप्रा १२,
२६; -रेपु या १, ९.

अमितौ(त-ओ)जस्^० - पाग ४, १,
९६^३; -जसा वृदे ७, ५५.

आमितौजि- पा ४, १, ९६.

अ-मित्र^० - पा ६, २, ११६; पाग ४, १,
९९^३; १५४^३; -त्रः बौश्रौ १२,
१९ : १५^१; या ५, ७; -त्रम्
आपथौ १७, २१, ७^१; -त्रस्य
आपथौ २०, २०, ७^१; -त्रः
आपथौ १, २०, ८; २०, ८, १;
वैश्रौ ४, ७ : ७; हिश्रौ १, ५, ६३;
अप्राय २, ५; अत्र ११, १०;
या ९, ३३^३; -त्राणाम् बौश्रौ

१४, १८ : ५; अप्राय २, ५; अप
३७, ५, ३; अत्र ११, १०; अप
३ : ५१; -त्रात् पावा ५, ४,
३६; -त्रान् आपथौ ७, ४, ७;
आपथौ ३, १४, ३; १४, २९, ३;
३१, ३; १५, ७, ९; बौश्रौ ९, ७ :
१४; भाश्रौ ११, ८, १; हिश्रौ
१५, ७, १६; वैताश्रौ ३२,
१३; कौम् १५, १; ९८, २;
अप्राय ५, ६; अत्र ३, १९;
शुया १, ७; ९, ४०^३; ११,
२; शुप्रा ३, १४७; तैप्रा ९, २१;
अप्रा २, १, २; शौच ३, ६५;
शैशि ३२०; -त्रे पा ३, २, १३१;
-त्रेभ्यः कौम् १६, १९; अप १,
९, ७.

आमित्र- पावा ५, ४, ३६.

आमित्रायण^३ - पा ४, १, ९९.

आमित्रायणि^३ - पा ४, १, १५४.

आमित्रि- (>आमित्रिय- पा.)
पाग ४, २, १३८.

अमित्र-चक्षुस्^० - -क्षुषा कौम् ३९,
११.

अमित्र-प्राति- -तौ अप ७२, ३, ११.

अमित्र-मध्ये- -ध्ये सु १६, ५.

✓अमित्रय>अमित्रयु- -युः शाश्रौ
१२, १५, १; द्राश्रौ ७, ३, ५.

अमित्र-साह^० - -हः शौच ३, २३^१.

अमित्र-सेना^० - -नाम् साश्रु २,
१२१५^१.

अमित्र-हन्^० - -हणम्^० आपथौ
१६, ३०, १; वैश्रौ १८, २० : ४३.

a) विप. । अर्थः व्यु. च ? । १अम-+अक्ता- (< ✓अच्) इति स्क. । अ- (=आ [कप्र.]) + मा (<अस्मद्-) +
अक्ता इति डु. (तु. सस्थ. टि. अभ्यक्ता-> -क्ता) । b) द्वस. पूष. =पौषमास- । c) तम. > द्रम. । d) विप. ।
वस. । e) विप. । वस. > द्रस. । f) =महत्- । विप. । वस. । g) वैप १, परि. च द्र. । h) विप.
नाप. च । तस. । i) असमर्थः समासः । पाठे कृण्वन्तम् इत्यनेनान्वितः नञ् द्र. । j) तस. पूष. =कुत्सित- ।
k) औ इति पाठः ? यनि. शोषः (तु. जीसं.) । l) विप. (उत्का-) । m) व्यप. (ऋषि-विशेष-) । n) वैप १
द्र. । o) सपा. काठ ३९, ५ शत्रुहणम् इति पाठे ।

वैप-प्र-४३

हिश्री ११, ८, ४.
 अमि(त्र>)त्रा-युध्^a - युध्: ऋप्रा
 २, २३१.
 †अ-मिथित^a - त: या ४, २०.
 †अ-मिथुन^a - ना: आगृ ४, २, २;
 ५, ३.
 अ-मिथुनीभवत् - वन् वाधुश्री ३,
 ७० : ६; ८.
 †अमिन^a - न: या ६, १६०.
 अ-मिथ्रीभाव-गति^b - तित: या
 २, २४.
 अ-मिषत्^c - षत् वीश्री १७, १९ :
 १०१.
 †अमिहम्^d आपमं २, २२, ५; भागृ
 २, २७ : १३.
 अमी- अदम् - द.
 अ-मीत^e - ते माश्री १, २, ६, २२.
 †अमीव, वा^f - पाउभो २, ३, १३८;
 -वा मागृ २, १८, २^३; अय ४८,
 ११५; निघ ४, ३; या ६, १२०;
 -वा: आश्री ३, १३, १२;
 आपश्री ७, ६, ७^६; वैश्री १८,
 ५ : ११; शुभा ४, २७; या १२,
 ४४०; -वान् आपश्री १२, ३, २;
 हिश्री ८, १, ४१; -वाम् शाश्री ८,
 १८, १; वीश्री १०, २६ : ८.
 †अमीव-चातन^g - न: आपश्री १६,
 ६, ७; वैश्री १८, ४ : १०; हिश्री
 ११, १ : ७३.
 †अमीव-हन्^h - हा आश्री २, १,

२७; ४, ८, ८; काश्री ५, १२, १०;
 आपश्री ६, १७, १२; वीश्री २८,
 ३ : १७; माश्री १, ६, ३, १^b;
 वाश्री १, ५, ४, ४२^b; हिश्री ६,
 ६, १६; आपमं २, १५, २१^b;
 शागृ ३, ४, ८^b; पागृ ३, ४, ७^b;
 कागृ १२, १^{२b}; वीगृ ३, ५, १६^b;
 मागृ २, ११, १९^b; कौस् ६८,
 ३१; ऋअ २, ७, ५५^b; या १०,
 १७०^b.
 अमु- अदम् - द.
 अ-मुक्त- -क्त: अय ७०^३, ११, ५; ६;
 -क्तयो: अय ५३, ६, ५; विध
 ६८, ३.
 अमुक्त-ह(स्त>)स्ताⁱ - स्तासु विध
 ९९, २१.
 अमुक्तहस्त-ता- -ता विध २५, ५.
 अ-मुख्य- -ख्ये मीस् १२, २, ३४.
 अ-मुटित->^jत-शिख^k - ख: अय
 ७०^३, २, १.
 अ-मुदित- >^lता(त-अ)ङ्ग^m - -ङ्ग
 वीश्री १८, ४६ : १२.
 अमुदिताङ्गी- -ङ्गी वीश्री
 १८, ४६ : ७.
 अ-मुष्टि- -ष्टिम् आश्री १, ७, ६.
 अ-मुष्टिकृ(त>)ता- -ताभि: शाश्री
 १, १०, ५.
 अमू- अदम् - द.
 अ-मूढ- -ढ: या ६, ८.
 †अ-मूरⁿ - र: माश्री ५, २, ८, २०;

अय ४८, ११५; निघ ४, ३; या
 ६, ८०; ११, २.
 †अमूरिशादसः^o शाश्री १२, २०,
 २१.
 अ-मूर्त- -र्तानि वृदे १, ८१.
 अ-मूर्ति^p - -र्तानाम् वैगृ ४, ४ : १४१.
 अ-मूर्ध-प्रभृत्यु(ति-उ)दक^q - -केशु
 पा ६, ३, ८४.
 अ-मूर्ध-मस्तक^r - -कात् पा ६, ३,
 १२.
 अ-मूल, ला^s - पावा ४, १, ४; -लम्
 वीश्री २०, २३ : १८; भाश्री
 ८, १५, १०; -लानाम् भाश्री १,
 ५, ११; हिश्री १, २, ६५.
 अमूहम् - ३अम- ण टि. द.
 अ-मुक्त^t - -क्त: शाश्री १८, १५, ५१.
 †अ-मृडय^u - -य: वाश्री २, २, ४,
 १४; वैगृ १, १८ : १०.
 अ-मृण्म, न्मय^v - -य: वीश्री ६, १ : ८;
 -यम् आपश्री १, १४, ३१; वीध
 २, १०, २४; -ये काश्री ७, ४,
 २८; -येन काश्री ४, २, ३४; ८,
 २, १; वाश्री १, २, २, ३४.
 अमृण्म, न्मय-पायिन^w - -यी
 वीश्री २, २० : ३; २८, ८ : ३;
 वैश्री १, १६ : २, पागृ २, ८, २;
 आमिगृ १, १, ४ : ३०; हिगृ
 १, ८, २.
 अ-मृत, ता^x - पा ६, २, ११६; -†०त्
 काश्री १०, ९, ८^p; वीश्री; -त:

a) वैप १, परि. च द. । b) विप. (पूजदन-) । वस. > तुस. । c) नाप. (स्थावर-) । तस. ।
 d) पाटः ? । सप्र. पागृ ३, ७, २ अहम् इति, हिगृ १, १४, २ इह इति च पाभे. । e) तस. उप. < √मी
 [हिंसायाम्] । f) पाभे. वैप २, ३ खं. अमृते तैत्रा ३, ७, ५, ३ टि. द. । g) पाभे. वैप १ परि. अमीवाम् ऋ १०,
 ९८, १२ टि. द. । h) पाभे. वैप १ परि. अमीवहा ऋ ७, ५५, १ टि. द. । i) विप. । वस. । j) पाठः ?
 वैप १ परि. शोधः द. । k) तस. > द्वस. । l) विप. । वस. > द्वस. । m) सप्र. अमृदयः <> अमृदयः
 इति पाभे. । n) विप. । उस. उप. < √पा [पाने] । o) विप., नाप. (द्रापर-] छन्दो-विशेष- [निस्. ऋप्रा.]) ।
 शिष्टं वैप १, परि. च द. । p) अमृतत्वस्य इति पाठः ? अमृत, मर्त्यस्य इति द्वि-पदः शोधः (तु. ऋ ८,
 ४८, ३; कर्कश) ।

आश्रौ ४, १३, ७[†]; ऋआपश्रौ;
आपमं २, ११, ३१^३; या १४,
६; -ऋतम् आश्रौ २, ३, ५^३; ४,
१४^०XX; शाश्रौ ४, ८, २^३; काश्रौ
४, १४, २८^०; आपश्रौ १८, ६,
१^३; १५, ५^३; २२, १७, १०^३;
माश्रौ २, ५, ४, १७^३; हिश्रौ १६,
४, ३५^३; आपमं २, २, १^३; हिगृ
१, ३, ५^३; कौस् ८०, ५६^३: ९०,
२०^३; या २, ४; ७, ३; २०; १०,
३८; ११, १०; १४, २; ३; ११;
३३; -ऋतस्य आश्रौ १, १०, ८;
२, २, ४; शाश्रौ: आपश्रौ ४, ११,
३^३; भागृ १, २५: ६^३; वागृ २, ६^३;
या ३, १२^३; १२, ८: १४, २;
-ता आपश्रौ १०, ३, २^३; वौश्रौ;
अप ५, २, १^३; १८, १, १७^३; ३१,
८, १^३; अशां १६, १^३; -ऋता:
आश्रौ ५, ६, २६; काश्रौ; आपमं
२, ११, ४^३; आग्निगृ ३, ५, ७:
६^३; -ऋता: गौप २, ५, १४^३;
-ऋतात् वौश्रौ ५, १६: २१;
माश्रौ; -ऋतान आश्रौ १, ३, २३;
वौश्रौ; -तानाम् शाश्रौ १५, २२,
१^३;^३; -ताम् वौश्रौ १७, ३२:
१^३;^३; वाधूश्रौ; अप^३ ३१, ७, ५;
५४, २, ४; ६२, ४, ६; ६८, ३,

९; ६९, ६, २; ७०^३, २३, १५;
७१, १९, ८; ७२, १, ३; ३, १६;
अशां^३ १७, १; २०, १; या १२,
१०^३;^३; -ऋताय आपमं १, ११,
११; कौस् ६८, १०; ७३, १५;
-तायाम् आश्रौ २, ४^३;^३; शाश्रौ;
अशां १८, १^३; -ऋताम: आश्रौ
४, ७, ४; शाश्रौ ५, १०, २३;
आपश्रौ ८, १५, १७; -ऋते आश्रौ
२, ४, १४; काश्रौ ४, ८, २६; १४,
२८^३; आपश्रौ २, ११, १^३XX;
वौश्रौ; माश्रौ १, ६, १, ५०^३;
या २, २०^३;^३; -ऋतेन आपश्रौ
७, ६, ७; १६, २६, ६; वौश्रौ;
-ऋतेभ्य: आश्रौ २, १०, १८;
आपश्रौ; -ऋतेषु या ८, २०^३;^३;
अमृत-जात-स्थित^३ - तम् या १४,
३०.
ऋअमृत-त्व- -त्वम् शाश्रौ ७, १८,
१-५; १५, १७, १; ऋआपश्रौ; या
११, १६^३;^३; -त्वस्य हिगृ २, ३,
८^३;^३; -त्वाय आश्रौ ५, १३,
१३; शाश्रौ १३, १४, ६; वौश्रौ;
-ऋत्वे आपश्रौ १, १३, १; माश्रौ
१, १३, ३; माश्रौ १, १, ३, २३;
हिश्रौ १, ३, ३६.
अमृत-निधि^३ - धिम् विध १, ३४.

ऋअमृत-पला(श >)शा^३ - शा
आपश्रौ ६, ७, १; हिश्रौ ३, ७,
४१^३.
?अमृतपोर्णुवेम^३ सु ११, ६.
ऋअमृत-भक्ष^३ - क्ष: आपश्रौ १९,
१३, २३; वौश्रौ १९, ५: २१;
हिश्रौ २३, २, ५०; हिपि १८:
२२.
अमृत-मय- -य: शुभ ४, २१९;
-यम् वाधूश्रौ २, १६: ६; अग्र
१, १.
अमृत-मुख^३ - खा: या १४, ३२^३.
अमृत-रम-पान^३ - वत् वैध १, ९,
१५.
अमृत-वत्- -वत: वौश्रौ १९, ५:
२२^३.
अमृतवती- -ती कागृ ११, २^३;^३.
अमृत-वाद^३ - दम् या १४, ३२^३.
अमृत-शरीर^३ - रम् या १४, ३२.
अमृत-संभव^३ - वा: अप ५२, १६,
२.
अमृता (त-आ)मन्^३ - स्मा अप
२३, १४, ६^३.
अमृता(ता-आ)दि^३ - दौ अप २१,
३, ३.
ऋअमृता(त-अ)पिधान^३ - नम्
आपमं २, १०, ४; भागृ १, २४,

a) पाभे. वैप १ परि. अमृत: ऋ १०, ४५, ८ टि. द्र. । b) पाभे. वैप १ परि. अमृतम् मा १, ३१ टि. द्र. । c) सपा. अमृतम् <> प्राणम् इति पाभे. । d) पाभे. वैप १ सुव: तै ३, १, ९, २ टि. द्र. । e) पाठ: ? (तु. सपा. आपश्रौ २१, १२, ३ मतम् इति पाभे.) । f) पाभे. वैप १ मधु मा ३५, १७ टि. द्र. । g) पाभे. वैप २, ३३. घृतस्य तैत्रा ३, ७, ६, ११ टि. द्र. । h) = ओषधि-विशेष- [नभा. गिलोय] । i) = शान्ति-विशेष- । j) पाभे. वैप १ परि. अमृतम् शौ ७, १८, ३ टि. द्र. । k) सपा. अमृते <> प्रागे इति पाभे. । l) पाभे. पृ ३३८ [द्र. । m) = पद्म-स्थित- । सस. > सस. । n) पाठ: ? अमृतस्य इति शोध: (तु. आग्निगृ २, १, ३: २९, Böht LZDMG ५२, ८६], छन्दश्च) । o) नाप. । षस. । p) विप. । वस. । q) ष्वा: इति पाठ: ? यनि. शोध: (तु. आपश्रौ.) । r) पाठ: अमृतपा, ऊर्णुवेम इति पपा. च ? अमृत (हे सुपर्ण), प्रोर्णुवेम इति द्वि-पद: शोध: (तु. सु ११, ४ सम् एनसा प्रोर्णुवीमि इति) । s) मलो. कस. । t) ष्वे इति RN ? । u) कस. > षस. । v) ष्वाच् इति देवपाल: । w) ष्वाच् इति RN ? । x) नाप.

(आचमन-विशेष-) । षस. ।

२८; आमिष्ट २, ४, १० : ३६;
६, ६ : २७; ७ : ३३; बौध १,
२, ४१; भाग्य २, २४ : १४;
भाग्य १, ९, १७; वाग्य ११, १९;
वैग्य २, १६ : ६; १०; हिग्य १,
१३, ९; बौध २, ७, ९; वैध २,
१४, १२.

अमृता-महाशान्ति^१- -त्त्या अप
७०, २, ५.

अमृता(त-अ)र्थ- -र्थम् सु १, ४.

अमृतार्थ-त्व- -त्वम् मीसू १०,
८, ७०^b; -त्वात् मीसू १०, २, ३.

अमृता (त-आ)शिन्^c- -शिनम्
शंघ ११६ : ५३^d.

अमृता(त-अ)श्म- पा ५, ४, ९४.

अमृता(त-अ)सु^e- -सुः कौसू २८,
१२; ४५, २; अश्र ५, १.

अमृता(त-आ)हुति- -तयः वाधूश्री
३, ९ : १९; -तिः वाधूश्री ३,
९ : १८; -तिभिः आग्य ३, ३,
२; -कृतिम् आश्री २, २, ४;
शाश्री २, ६, ७; आपश्री ६, १, ८;
बौश्री ३, ४ : १०; २४, ३० :
१२; १३; माश्री ६, ७, ७; माश्री
१, ६, १, ४; वाश्री १, ५, २, ५;
वैश्री २, १ : १०; हिश्री ३, ७,
७; आपमं २, १५, १४; अप्राय
१, २९.

अमृतो(त-उ)दक^f- -कम् जैग्य
२, २ : २३.

अमृतो(त-उ)द्वारिन्^g- -री वैग्य १,
१४ : १४.

अमृतो(त-उ)पस्तरण^h- -णम्

आपमं २, १०, ३; आग्य १, २४,
१३; आमिष्ट.

अ-मृत्कⁱ- -स्कः शंघ ५२.

अ-मृदय^j- -यः माश्री ६, २, ५,
३२^k.

अ-मृन्म(य >)यी^l- -यीः आपश्री
१६, १३, १०; हिश्री ११, ५, २१;
-यीभिः बौश्री ६ : ११; -यः
वैश्री १८, ११ : २५.

अ-मेक्षण^m- -गौ माश्री १, ५, ६, ६.

अ-मेघ-संपन्नⁿ- -न्नम् बौश्री २६,
९ : ३; -न्नानि बौश्री १४,
१५ : १.

अ-मेदस्क^o- -स्कम् आपश्री ७, २६,
४; हिश्री ४, ५, ३१.

अ-मेधस्- पा ५, ४, १२२.

अ-मेध्य^p- -ध्यम् काश्री २५, ११, २५;
आपश्री ५, ४, १^q; १०, १५, ७;
१५, १८, ८; बौश्री २, ५ : २०^r;
६ : ७^r; ६, ६ : २०; ९, १९ :
४७; १४, १ : ९; १०; ९ :
१७; १८, २४ : ११; २५, ७ :
५-६; २८, ९ : ५; माश्री ५, ४,
१२^r; १०, ८, ५; ११, १८, ९;
माश्री ४, ८, १; वाधूश्री ३, १०६ :
३; वैश्री १२, ११ : ८; २१, १ :
४; हिश्री ३, ३, ७^r; १०, २, २४;
आमिष्ट १, २, ३ : १९; २, ३, १ :
२^r; ६, २ : १२^r; बौग्य ३, ४,
२६; जैग्य १, ३ : २; अप्राय १,
३^r; २, १; आपध १, १६, १४;
२४; बौध १, ५, ५९; ७६^r; ७,
३१; २, ५, ६^r; ३, ८, २१;

विध ७१, ३२; हिध १, ५,
१३; २३; -ध्यानि विध २२,
८४; २३, ५१; -ध्ये बौश्री २७,
९ : ६; -ध्येन बौध १, ५, ५७;
विध २३, ४३; -ध्येषु बौध १,
५, ५१; -धैः आपध १, १६,
२५; १७, ५; हिध १, ५, २४;
३७^r!

अमेध्य-दर्शन- -तम् माश्री २, १,
२, ३२; -ने बौग्य ३, ५, १४^r.

अमेध्य-पतित-चाण्डाल-पुलकस-रज-
स्वला-कुणप-कुष्ठि-संस्पृष्ट^m-
-ष्टानि शंघ २२८.

अमेध्य-पतित-चाण्डाल-पुलकस-
रजस्वला-कुनखि-कुष्ठि-संस्पृष्टा-
(ष्ट-अ)न्नⁿ- -न्नम् शंघ २२९.

अमेध्य-पतित-चाण्डाल-पुलकस-र-
जस्वला(ला-अ)वधूत-कुणि-कुष्ठि
कुनखि-संस्पृष्ट^m- -ष्टानि शंघ
४३०.

अमेध्य-पातकिन्^o- -किभ्यः भाग्य
२, १३, ५.

अमेध्य-पात्र- -त्रम् गौध २०, ४.

अमेध्य-प्राशन- -ने बौध २, १, ६३.

अमेध्य-मुज- -मुजः विध ५१, ४१.

अमेध्य-भूत- -तस्य बौश्री १४, ९ :
१५.

अमेध्य-मध्य-ना^p- -गाः विध ४३,
४१.

अमेध्य-लिप्त- -सस्य वाध ३, ४८;
गौध १, ४८.

अमेध्यलिप्ता(त-अ)ङ्ग^q- -ङ्गः
वैध ३, ३, ३; ४^d.

a) कस. । b) तु. आन. । c) नाप. (मरुद्-विशेष-). । उस. । d) सप्र. अपु [२१९, ३२]

अमिताशनम् इति, शक. (तु. वायुशब्दः) मित्ताशिनः इति च? । e) वैप १, परि. च द्र. । f) विप. । बस. ।

g) विप. (सोम-). । h) नाप. । षस. । i) वावि. (तु. पासे. पृ ३३८ m) । j) तस. । k) विप. ।

तस. > तस. । l) मेधैः इति पाठः? यनि. शोघः (तु. आपध १, १७, ५) । m) दस. > तस. । n) दस.

> तस. > कस. । o) दस. । p) षस. > उस. । q) क्लिप्ते ञङ्गे इति C. ? ।

अमेध्य-लोहित-शवा (व-अ) पपात्र-
दर्शन^a- -ने बौश्रौ ९, १९ :
४६; बौगु ३, ४, २५^b.
अमेध्य-श्व-चाण्डाल-शूद्र-वायस-प-
तित-रासभ-रजस्वला^c- -लाभिः
बौश्रौ २७, ८ : २.
अमेध्य-सेविन्- -वी आपध १,
१६, २६; हिध १, ५, २५.
अमेध्या(ध्य-अ)क्त- -क्तात् विध
२३, ३९.
अमेध्या(ध्य-अ)भ्याधान- -ने बौध
१, ६, ४९.
अमेध्या(ध्य-उ)दक- -कम् दध ९९.
अ-मेन^d- -नान् या ३, २१^f.
†अ-मेनि^d- -नि काश्री २६, ६, १०;
आपश्री १५, ११, २; वौश्रौ ९,
११ : १९^e; भाश्री ११, ११, १;
शुश्र ४, ९७.
अ-मोघ, घा^d- -घम् गोगु ४, ८, १८;
-घा अप २०, २, ५; -घाः बौगु
२, १, १९^f; -घानि अप ७२,
१, २; -वाय वाश्री ३, ३, ३,
४; जैगु १, २ : २३^f; अप ३६,
९, ६^f.
अ-मोह^f- -हः आपध १, २२, ६;
हिध १, ६, १४.
अ-मौत्र^g- -त्रेण पागु २, ६, २०.
अ-मौत्र-घौत^h- -तम् काश्री ७, २,
१६.
अमृत् (स L:J)ⁱ आपश्री ६, ४, ६; ६, ५;
भाश्री ६, १०, ७; अप ४८, ११६;
ऋत ३, ७, ४; शौच २, ५२^f;

पा ८, २, ७०; पाग १, १, ३७.
√अम्बू पाधा. भ्वा. पर. शब्दे ।
अम्ब^l- -म्बाः बौश्रौप्र ४१ : १०.
अम्बर^d- पाउत्रु ३, १३१; पाग २, ४,
३१; -रम् अप ४८, ७३; ९८ⁱ;
विध १, ३८; ऋनिघ १, ३; २, १६;
या १४, ११; -रे सु ३, २; अप
५८ⁱ, ३, ३; ६३, ३, ६; ६४, ९,
७; वृदे २, ३६.
अम्बर-गर्भौ(र्भ-ओ)घ^k- -वम् वृदे
२, ५६.
अम्बर-ज- -जेन वृदे २, ३७.
अम्बर-धारण- -णम् आग्निगु २, ७,
१ : ११.
अम्बरा(र-अ)द्भुत- -तम् अप ७०,
४, २.
अम्बरीष^d- पाउ ४, २९; -षः बौश्रौ
२०, १६ : १८; ऋअ २, ९, ९८;
१०, ९; -षम् बौश्रौ २, ७ : ११;
१३ : ३; २०, १६ : १७; वैश्रौ
१, ५ : ४; -षस्य बौश्रौ २०,
१६ : १७; -षात् आपश्री ५,
१४, ३; बौश्रौ १०, १३ : १५;
हिश्री ११, ३, ९; गोगु १, १, १५;
द्रागु १, ५, ४.
आम्बरीष- -ष पाश्री १२,
१२, ३; ४; आपश्री २४, ७, ११;
१२; बौश्रौप्र २२ : ५; वैध ४,
३, ६; -षः साअ १, ३३; २,
११८७.
अम्बरीष-ऋजिधनु- -धनौ साअ
१, ५५२.

अम्बरीष-पुत्र- (> आम्बरीष-
पुत्रक^l- पा.) पाग ४, २, ५३.
अम्बरीष-वत् आपश्री २४, ७, ११;
१२; बौश्रौप्र २२ : ५; वैध ४,
३, ६.
अम्ब-घु, घा^m- पा८, ३, ९७; -घः बौध
१, ९, २; वैध ३, १२, १०; -घाःⁿ
अप ५६, १, ३; -घात् बौध १,
८, ९; वैध ३, १५, १; -घायाम्
बौध १, ९, १२.
अम्बघो(घ-उ)प्र-निषाद^o- -दाः
वाध १८, ८; बौध १, ८, ७.
अम्बघो(घ-उ)प्र-संयोग^p- -नो बौध
१, ९, ९.
अम्बा^d- पाउमो २, २, २२०; पाग ४,
१, ४; ६, ३, ३४; -†म्ब आश्री
२, १८, १३; आपश्री ८, १८,
१; १२, ९, ९; बौश्रौ ५, १६ :
१४; ७, ६ : ९; माश्री १, ७, ७,
९; वाश्री १, ७, ४, ६४; वैश्रौ
९, ११ : ६; द्राश्री १३, २, १३;
लाश्री ५, ३, ५; सु १३, ३; १५,
४; पावा ७, ३, १०९; -†म्बा
आपश्री १७, ५, ४; बौश्रौ १०,
४५ : २२; माश्री ६, २, २, १०;
वाश्री २, २, १, २५; वैश्रौ १९,
५ : १५; हिश्री १२, २, २; कागु
५४, ३; विध ६७, ७; वृदे ५,
५८^q; चाअ ४० : ५; या ९,
१०^q; फि २; -†म्बेⁿ काश्री
२०, ६, १२; आपश्री २०, १७,
१२; १७; १८, ४; बौश्रौ १५,

a) द्रम. > षस. । b) °शवपात्र° इति पाठः? यनि. शोधः (तु. बौश्रौ.). । c) द्रस. । d) वैप १, परि. च द्र. । e) अमेन्य° इति पाठः? यनि. च अस्मे इति च शोधः । f) तस. । g) तस. उप. मूत्र-+ सादृश्ये अण् प्र. (पा ५, ३, १०७) । h) विप. । तस. > तृस. । i) वैप १ द्र. । j) व्यप. (ऋषि-विशेष-) । व्यु. ? । k) षस. > सस. । l) =देश-विशेष- । m) नाप. ([ब्राह्मणाद् वैश्यायां जाता-] जाति-विशेष-) । व्यु. ? । अम्बा-+स्थ- (कर्तरि कृत्, पत्वं [पा ८, ३, ९७]) पूष. हस्त्रधेति न्यासः, मनुः १०, २७ प्रश्न., <अम्ब- इति पासिवा. अभा.) । n) पाभे. वैप १ परि. अम्बे मा २३, १८ टि. द्र. ।

२९:३१; ३०:१; वाश्री ३,
४,४,१२; हिश्री १४, ४,१; ६;
११; शुभ्र ३, २८; चाश्र ४२:
७; शुभ्र २,२०; भाशि ३५; पा
६,१,११८; पावा ७,३,१०९.
अम्बा(म्बा-अर्थे)-नदी- -द्यो: पा
७,३,१०७.
†अम्बिका^a- पाग ४, १,१२३^b;
-०कपावा ७,३,१०७^c; -कया
आपश्री ८, १८, १; वौश्री ५,
१६:१२; भाश्री ८, २१, ८;
-का मैअ २०; -काम् आमिष्ट
२,५,३:२२; वौश्री ३, ७, १७;
-कायै वौश्री २५,३:१६; वौश्री
२, ८, ९; -०के आपश्री २०,
१७, १२; १७; १८, ४; वौश्री
१५, २९:३१; ३०:१; वाश्री
३,४,४,१२; हिश्री १४,४,१:६;
११; शुभ्र २,२०; ४,७७; पा ६,
१,११८^d; पावा ७,३,१०७^e.
आम्बिकेय- पा ४,१,१२३.
अम्बिके-पूर्व- -र्षे पा ६, १,
११८.
१अम्बी^f- -०म्बि वाश्री ३, ४,४,
१२^g.
अम्बाडा^h- -०ड, -०डे पावा ७, ३,
१०७..
अम्बालाⁱ- -०ल पावा ७,३, १०७;
-०ले पा ६, १,११८; पावा ७,
३,१०७.
अम्बालिका^j- -०के शुभ्र २,२०^k.
†अम्बाली- -०लि^l आपश्री २०,

१७, १२; १७; १८, ४; वौश्री
१५, २९:३१; ३०:१; हिश्री
१४,४, १; ६; ११; चाश्र ४२:
७; तैप्रा ११,१७.
†अम्बि^m- -म्बय: आश्री ५, १, १७;
शाश्री ६,७, १०; १४,५१,११;
वैताश्री १६,१०; कौस् ९, १; ४;
१९,१; २५, २०; ३७, १; ४१,
१४; अप ३२,१,२२; २६; २७;
३७,१८, १; ३९, १,६; ४२,१,
१०; अअ १,४.
२अम्बीⁿ- -म्बयम् ऋप्रा २,७३^o.
†अम्बि-तमा- -०मे आश्री ७, ११,
२२; ऋश्र २, २, ४१; वृदे २,
१३७.
अम्बिक^p- -कस्य चाश्र १६:१०.
अम्बु^q- पाउभो २, १, ८५; -म्बु
जैश्रीका १०५; १०६; २०८; निम्
१, ५:२०; अप ४८, ७५; ६५,
२,७; शंघ १८३; निघ १,१२;
या ३,१०: ऋप्रा १७,५; -म्बुना
वैध २,९,११.
अम्बु-जीविन्- -विनाम् विध ९,२९.
अम्बु-इ^r- -इ: या ३,१०.
अम्बु-दोष- -पे अप ७०,१०,२.
अम्बु-पार्श्व- -श्वे वैध ३,५,१३.
अम्बु-प्रकम्पित- -तम् अप ६२,
३,३.
अम्बु-भक्ष^s- -क्ष: वौध ४,५,९.
अम्बु-मत्- -मत् या ३,१०^t.
अम्बु-संशोष- -षम् अप ६४,९,४.
√अम्बू, √कृ > अम्बू-कृत^u- -तम्

ऋप्रा १४,४.
अम्बल- पाउ ४,१०८.
√अम्भू पाधा. भ्वा. आत्म. शब्दे ।
अम्भस् पाग १,१,३७.
१अम्भस्^v- पाउ ४,२२०; पाग १,१,
३७^w; -म्भ: शाश्री २,११,६^x;
आपश्री ६,१७,२^y; २१,१२,३;
†वौश्री^z ३,८:१९; २०; माश्री
१,६,२,८^{aa}; वाश्री १,५, ४,
८^{ab}; वैश्री २,७: १०^{ac};
†हिश्री ६, ६, १६^{ad}; १६, ४;
३५; निम् १, ५: ६; २०; काश्र
५८,३^{ae}; माश्र २,३,६^{af}; अप
४८,७५^{ag}; शंघ ४५७:७; विध
१२, ३; ७^{ah}; ९८, २; चाश्र ७:
१^{ai}; अश्र १३,४^{aj}; निघ १,
१२^{ak}; ऋप्रा १७,५; -म्भस: कप
२, १, १०; विध ४६, २३;
-म्भसा शंघ १६४; विध २३,
९; -म्भसाम् अप ६४,३,५; शंघ
१०३; -म्भसि अप ७०^{al}, ७,
११; ७१, १०, ४; शंघ १०३;
४३८; ४३९; विध ३,९७; १२,
२; ७१, ३५; -म्भमी निघ ३,
३०; -म्भामि आपश्री २०,११,
१८; कप १, १०, १४; भाशि
१०८^{am}; -म्भोभ्य: आपश्री २०,
११,१८^{an}.
आम्भसिक- पा ४,४,२७.
अम्भ-स्थ- -स्थ: विध ६४,२४.
अम्भो-ज (> अम्भोजि [न् >]
नी^{ao}- पा.) पाग ५,२,१३५.

a) वैप १, परि. च द्र. । b) व्यप. (काशिराज-तनया-) । c) विप. ([अम्बे, अम्बालिके-]) ।
पंस. पूष. सं१ । d) =अम्बा- । व्यु. ? । e) पामे. वैप १ परि. अम्बालिके टि. द्र. । f) व्यप. (ऋषि विशेष-) ।
व्यु. ? । g) नाप. (साल्ल- [द्रापर-] छन्दो-विशेष- [निस्. ऋप्रा.]) । व्यु. ? । < √अम् इति दे. [निघ १,३]
पाउभो., पाउवृ (१,२७); < √अम्भ इति अभा. । h) नाप. (भेघ-) । उस. । i) बस. । j) नाप.
(अक्षरदोष-विशेष-) । k) नाप. (अम्बु- [कृत-] छन्दो-विशेष- [निस्. ऋप्रा.] , यावापृथिवी-) । वैप १ द्र.
l) अव्य. । m) पामे. वैप १ परि. अन्ध: मा ३,२० टि. द्र. । n) =देश-विशेष- ।

अम्भो-रुह^a - > ०ह-रूप^b - >
 ०पिन्- -पि विध ९८, २.
 २अम्भस्^c - > आम्भ- पा ४, १,
 ९६; -म्भिः बौध्रौ ५ : २.
 अम्भृण^d - गः अप ४८, ६८; निघ ३,
 ३; -णम् आमिगृ २, ६, ८ :
 ३९; -णान् बौध्रौ ६, ३४ : ५;
 ८; १७, १ : २; -णे जैगृ २, ७ : ४.
 *आम्भृणि- > आम्भृणी^e - णी
 ऋअ २, १०, १२५.
 अम्यक् √म्यक् द.
 अम्ल^f - पाउभो २, ३, ९०^g; पाग ५,
 १, १२३; २, १२७^h; -म्लम् विध
 ६१, ७; -म्लाद्य वागृ ४, २४;
 -म्लेन वाध ३, ६३; -म्लैः बौध
 १, ५, २७.
 आम्ल्य- पा ५, १, १२३.
 अम्ल-वारिⁱ - रिभिः वैध ३, ३, ११.
 अम्लिमन्- पा ५, १, १२३.
 अम्लो(म्ल-उ)इक^j - क्केन विध २३,
 २५.
 √अय^k पाधा. भ्वा. पर. गतौ, अयते
 निघ २, १४^l; अयन्ताम् लाश्रौ
 ३, ६, ३^m.
 १अयⁿ - पाग ५, २, ६४; -यम्
 आपमं २, १३, ७^o; -याः वाधृश्रौ
 ४, ५९ : ७; छुन् ३, २ : २;
 -यानाम् बौध्रौ १०, ३५ : १७^p;
 १४, २२ : १७; वाधृश्रौ ४, ५९ :
 ७; -येषु लुम् ३, २ : ३; -यैः

अअ ४, ३८^q.
 अय-क- पा ५, २, ६४.
 अय-स्व- -स्वम् वाधृश्रौ ४, ५९^r :
 ७.
 अया (य-अन्-अ)नय^s - >
 ०यिन^t - पा ५, २, ९.
 अयन^u - नः या ९, ३; -नम् आपश्रौ
 २३, १३, ९; बौध्रौ १७, १९ : ११;
 २६, १२ : ६; २१ : १०; २४ :
 १७; हिश्रौ १८, ४, ४२; ४३;
 लाश्रौ १०, १९, ११; निस् ४,
 १ : १^v; ३; ६; १६; १७; २०; ५,
 ५ : १३; १०, १२ : १; आमिगृ
 २, ५, ३ : ४५; ४७; बौगृ ३, ७,
 २८; २९; कौस् १०७, २. १४०,
 १५; अप १, ११, २^w; वाध २९,
 १५; शोध ११६ : ४७; वेज्यो ६;
 पा ८, ४, २५; -नस्य या १०,
 ४१; ११, ४९; वेज्यो ४०; -नाः
 या २, ७; -नात् या २, १७;
 -नानि वैताश्रौ ४२, १८; वेज्यो
 ३०; -ने वैश्रौ १८, १५ : ४;
 लाश्रौ १०, ७, २; निस् १०, ४ :
 ६; आमिगृ २, ५, १ ! ६; ७, ५ :
 १४; ६ : २२; वेज्यो २८;
 -नेन बौध्रौ १६, २९ : ५; १७,
 २१ : ९; १० : १८, ५१ : २९;
 ५२ : ४; ८ : १३; १७; ५३ :
 २१; निस् १०, २ : १०; वेज्यो
 ८; -नेषु निस् १०, ८ : ४; २५;

९ : ३२^x; मीस् २, ३, ५; -नैः
 या २, २५; १२, २१.
 अयन-तसः(ः) वेज्यो ४०.
 अयन-द्वय- -यम् विध ७७, ३;
 -ये आमिगृ २, ५, ६ : ११.
 अयन-मास- -साः निस् १०,
 ९ : १०; -सान् द्राश्रौ ८, ३,
 २८; ३१; लाश्रौ ४, ७, ८; ११;
 निस् ५, १० : २.
 अयन-वत् काश्रौसं ३५ : ६.
 अयन-विकल्प- -ल्पः लाश्रौ
 १०, १४, १३; -ल्पाः द्राश्रौ ८,
 ३, २३; लाश्रौ ४, ७, ४.
 अयन-विचार- -राः लाश्रौ १०,
 १०, १५; १३, २.
 अयन-विषुव^y - -वौ अप २२,
 ४, २.
 अयना(न-आ)द्य- -द्यम् वेज्यो
 ९; -द्याः वेज्यो १०.
 अयमान- -नः सु ३१, ९; -नम्
 या ४, २४^z.
 अयिन्- पा ३, २, १५७.
 अयिष्यन्- -ष्यन् लाश्रौ ४, २, १०^{aa}.
 अयिष्यन्ती- -न्तीम् लाश्रौ ४,
 २, १०^{ab}.
 †आयिन्- -यिन्म् आपश्रौ १९, २५,
 १८; बौध्रौ १३, ३८ : २; हिश्रौ
 २२, ६, ३; आमिगृ २, ५, १० : ८.
 १अय- √अय द.
 †२अय^{ac} - -यः आपमं २, १३, ९; वैगृ

a) नाप. (अम्भोज-). उस. । b) वस. । c) व्यप. (ऋषि-विशेष-). d) विप., नाप. (अद्विभ्रग- [बौध्रौ.]), व्यप. ([वाचःपितृ-] ऋषि-विशेष- [ऋअ.]) च। शिष्टं वैप १ द. e) व्यप. (वाच्-). स्त्री. डीष् प्र. (पा ४, १, ६५). f) नाप. (रस-विशेष-). व्यु. ? । g) < √अम् इति । h) आम- इति पाका. । i) कस. । j) वैप १, ३९२ b द. । पा ३, १, ३७; ८, २, १९ परामृष्टः द. । k) सप्र. द्राश्रौ ९, २, ३ अयन्ताम् इति पासे. । l) वैप १, परि. च द. । m) अयम् (< हृदम्-) इति पाठः ? यनि. [=अयम्] शोधः (तु. भू. XXV; वैतु. हरदत्तः इमम् इति मुधा शोधुकः). । n) =प्रदक्षिण-प्रसव्यगामिनां शाराणां यस्मिन् पदे [कोष्ठे] परैः [शत्रुशरैः] पदानाम् असमावेश- (तु. पाम. प्रथ. । मलो. कस. (तु. पाशे.)) । o) नाप. (शार-). । p) दस. । q) नाप. (बालग्रह-विशेष-). व्यु. ? ।

३, १५ : ४.	अ-यज्ञवेशास ^b - -साय वाधूश्री ४, ६४ ^c : २.	अ-यथा-तथ ^d - पाग ५, १, १२४.
३अ-य ^e - -यः भाशि ८५.	अ-यज्ञ-शेष-त्व- -त्वम् मीस् १०, ७, ९; -त्वात् मीस् ७, ३, ३३.	अयाथातथ्य-, भायथातथ्य- पा ५, १, १२४; ७, ३, ३१.
अ-यकार ^f - -रः ऋपा १४, ४७; -रम् अप्रा ३, २, २५.	अ-यज्ञ-संयुक्त- -क्तः आपश्री ६, १७, ११; १७, ११, ६; १४, ४; ८; १७, ७; हिश्री ७, ४, ३७, ८, ६, ३८; १२, ४, १३; ५, ३७; -क्तान् वैश्री १४, ३ : ९.	अ-यथा-देवत ^g - -तम् बौश्री १४, ४ : १.
अ-यक्ष्म, क्षमा ^h - -क्षम् बौश्री ८, १५ : ११; कौस् २०, ५; -क्ष्माः आपश्री १, १२, ११; १४; १७; बौश्री १, १ : १३; माश्री; याशि २, ८; -क्ष्माय बौश्री १०, ३ : १; ५ : ४; वैश्री १८, १ : ५९.	अ-यज्ञ-संसृष्ट- -ष्टस्य हिध २, ३, ४९ ^c .	अ-यथा-पुर ^h - पाग ५, १, १२४.
अ-यक्ष्यमाण- -णः आपश्री ५, २१, ३; -णस्य वाश्री १, ४, ४, ३०; मीस् ५, ४, ८; ९.	अ-यज्ञा(ज्ञ-अ)ङ्ग- -ङ्गम् मीम् ४, १, ११.	अयाथापुर्य-, आयाथापुर्य- पा ५, १, १२४; पा ७, ३, ३१.
अ-यजमान- -नः आश्री ९, ३, १३; शाश्री १५, २७, १; -नम् बौश्री १०, २२ : १६; माश्री ६, १, ५, १६; -नस्य बौश्री १३, १६; १; -नाः लाश्री १०, १६, ७.	अ-यज्ञा(ज्ञ-अ)ङ्ग- -ङ्गम् मीम् ४, १, ११.	अ-यथा(था-अ)भिप्रेता(त-आ)-ख्यान ⁱ - -ने पा ३, ४, ५९.
अ-यजुक्त- -क्ताः वैश्री ९, १० : ११; -क्तेण आपश्री ८, ९, ११; माश्री ८, ११, ९; हिश्री ५, ३, २.	अ-यज्ञि, ज्ञी ^d य, या- -यम् आपश्री १५, १८, ८; माश्री ११, १८, ९; लाश्री ४, ११, ६; द्राश्री १२, ३, ३; -याः काश्री २५, १०, १९; अत्र १२, २१; -याम् गोश्री १, ६, १८; १९; द्राश्री १, १, २, ५ ^e ; -यैः वाध १२, १३.	अ-यथा(था-अ)र्थ ^g - -र्थम् निस् २, १ : २७; ६, १३ : ३५; मीस् ३, २, ३.
अ-यजुष्कृत- -तम् बौश्री २५, ८ : २; ९ : ८; १० : १७; -तान् लाश्री ९, १२, १२.	अ-यज्ञोपवीतिन्- -नी शोध ९५; बौध १, ५, १५.	अ-यथालोक-बृहद्-रथन्तर- -राः निम् १०, १ : २७; २९.
अ-यज्ञ- -ज्ञः भाशि ४३ ^f ; -ज्ञे द्राश्री ५, ४, ३०; लाश्री २, ८, ३०; द्राश्री ४, ४, २२; गौध ५, ४३; पा ३, ३, ३२; -ज्ञेन बौध १, ५, ८२.	अ-यज्वन्- -ज्वा या ११, ४; -ज्वा-नम् या ६, १९.	अ-यथा-समाम्नात ^h - -तम् शाश्री ७, २५, २.
अयज्ञ-त्व- -त्वम् मीस् १०, ५, ४१.	अ-यत, ता- -ता अप्राय ३, ८; -नैताय वाध २, ८; विध २९, ९; या २, ४.	अ-यथा-विधि ⁱ - -धि निस् ३, १० : १६.
अयज्ञ-वचन- -नात् मीस् १०, ५, ३६.	अ-यत्न- -त्नेन अप ७०, १२, ६; बौध ४, ८, १३; विध ५१, ७०.	अ-यथा-स्थान ^h - -नम् निस् १, १० : १९; ९, ३ : २.
अ-यज्ञ-पात्र- -त्रेषु पा १, ३, ६४.	?अयथा ⁱ पाश्री १, ५, ११ ^f .	अ-यथे(था-इ)ष्ट-प्रसङ्ग ⁱ - -ज्ञः पावा ४, १, ९०; ७, १, ५८; ८, २, १; १०६.
अ-यज्ञ-विलोप- -पः निस् २, ६ : ८.	अ-यथा-काल ^h - -लम् पावा ३, ३, १३५.	अ-यथो(था-उ)क्त ^h - -क्तम् ऋपा १४, ५८.
	अ-यथा-कृत- -तम् कप्र १, ३, ५.	अ-यद् ^j - -यदि पा ३, ३, १५५.
	अ-यथा-क्रिया ^h - -या कप्र १, ३, १.	अ-यदि- -दौ पा ३, ३, १५१.

a) विप. । बस. । b) वैप १, परि. च द्र. । c) सप्र. अयज्ञसंसृष्टस्य < > अवराजसंसृष्टस्य इति पाभे. । d) द्राश्री. द्राश्री. पाठः । e) ऽञि इति आन. । f) पाठः? (तु. सपा. ऋ १०, ७, १ यजुथाय इति पाभे.) । g) तस. > अस. । h) पौर्वापर्य-विपर्यसेनानुष्ठान- । i) तस. > अस. > बस. । j) बस. ।

अभयम् ?अधिनितपन्ते टि. द्र.
अ-यम^a- माग्याम् लाश्रौ ८,१,२७.
अ-यम-सू^b- सूः कौस् १०९,१.
अयमान- ✓अय् द्र.
अययास्य^c हिट् १,१४,७१.
अ-यव^d- वाः माश्रौ ६, २, ३, २;
 वाश्रौ २,२,२,८.
अ-यवस^e->आयवस^f- पावा ५,
 ४,३६.
अ-यवा(त्र-आ)दि- -दिभ्यः पा ८,
 २, ९.
अ-यशस्^g- -शाः काश्रौ १५, ३, २४;
 आपश्रौ ६,२१,११.
अ-यष्ट^h- -ष्टा वाधुश्रौ ४,६२ : १५.
अयस्यⁱ- पाउभो २, १,३४३; -यः
 आपश्रौ ११,४,८; माश्रौ १२,३,
 १७; माश्रौ ५, २, १४,९; वैश्रौ
 १४, ३ : ९; हिश्रौ ७, ४, ३३;
 अप १, ६, ३; अय ११, ३१;
 निघ १, २; -यसः वाधुश्रौ ४,
 ५९^२ : ९; -यसा वैश्रौ ११,
 ९:१; हिट् १, २६, १३^३; कौस्
 ५१, १७; बौध १, १०, १८;
 -यसी निसू ७,११ : ११.
आयस^j- -सः अप ३९, १,१०;
 -सम् माश्रौ ९, १५, ७; अप
 २७,१, ३^२; शंघ ३८४; ३८५;
 -साः काश्रौ २०, ७, ५; -सान्
 गोश्र ४, ८, १३; द्राश्र ४, ३, १;
 -सानि हिश्रौ १५,३,३४; -सेन

वाश्रौ १,२,४,५; वैश्र ३,९ : २;
 गोश्र २,९, १७; द्राश्र २,३,२७;
 कौस् ४०, १४; वाघ १४, ३२;
 -सेषु काश्रौ २१, ३, ७; -सैः
 अप २७,१,१; ६८,२,२८.
आयसी- -सीः आपश्रौ
 १६,१४,५; वाश्रौ २,१,५,२०;
 वैश्रौ १८, १२ : १४; -सीभिः
 हिश्रौ १४, ४, १७^४; -सीम् सु
 ३१,९; -सीषु विध ४३,३८.
आयस-दण्ड- -दण्डम् वैश्र
 ४, १४ : १३.
आयस-लोह^k- -हान् कौस्
 २५,२५.
अयः-पतन- -नम् निसू ७, ११ :
 १९.
अयः-पिण्ड- -ण्डः, -पिण्डान् याशि
 २, ९१; -ण्डेन शंशि ६४.
अयःपिण्ड-वन् आशि ५,१.
अयः-शफ^l- -फान् आपश्रौ १६,
 ६,४; माश्रौ ६,१,२,२६; वाश्रौ
 २, १, २, १; हिश्रौ ११, १,
 ६९.
अयः-श(य>)या^m- -याम् काश्रौ
 ८,२,३३^१.
अयः-शूलⁿ > आयःशूलिक^m-
 पा ५,२,७६.
अयस- पा ५,४,९४.
अयस-काण्ड- पाग ८,३,४८.
अयस-कान्त^o- पाउश्र ४, १८९;

पाग ८,३,४८.
अयस-कार^p- -रः विध ८६, ९; वैध
 ३, १४,१०; -रस्य विध ८६,
 १८; -राः अप १,६,२.
अयस-सुण्ड^q- -ण्डाः शंघ ३७४.
अयस-पात्र- -त्रम् आपश्रौ १,११,
 ५; माश्रौ ३,५,१८; वैश्रौ ३,६:
 ४; हिश्रौ १, ३,८; -त्रे आपश्रौ
 १,१४,३; वैश्रौ ३, ८:८; -त्रेण
 माश्रौ १,१४,९; माश्रौ १,१,३,
 ३७; गो १,३.
अयस-मय^r- -यान् द्राश्रौ १०,२,
 ८; लाश्रौ ३, १०, ७; -यानि
 काश्रौ २५, ७, ३६; आपश्रौ ९,
 ११, १४; वैश्रौ २०, २१ : ८;
 आमिगृ ३,५,७ : १६; बौपि १,
 ६ : १०; कौस् ८१, १८; -ये
 काश्रौ २०, ८, १; वाधुश्रौ ३,
 ९६ : ४; जैश्र १, २:१५; -येन
 काश्रौ २०, ८, १०; आपश्रौ
 २०, २२, १; बौश्रौ १५, ३१ :
 २५; ३५ : १२; २४, ८ : १५;
 हिश्रौ १४, ४, ५८; कौस् ४६,
 ५५; अप १,३६,७.
अयस्मया(य-आ)दि- -दीनि पा
 १,४,२०.
अयः-सीस-लोह-रजत-ताम्र-
 वेष्टित^p- -तम् कौस् १६,२९.
अयः-स्थूण^q- पाग २,४,६३^१; ४,
 १, ४१^१; ११२^१; ५, १, ४;

a) तस. उप. = युग्म- । b) तस. उप. नाप. । c) पाठः? अपास्य (< अपा [प✓अ]स् [क्षेपणे]) इति शोधः (तु. सप्र. आपमं २, २२,३ भागृ २, २८ : ३ अवास्य इति पाभे.; वैतु. आयास्य इति संस्कृतुः टि. शोधः?) । d) वैप १, परि. च द्र. । e) नाप. (।सस्यरहित-।क्षेत्र-) । बस. । f) वैप १, ६८१ j द्र. । g) विप. । बस. । h) पाठः? अयासा इति Böht [ZDMG ५२, ८६] । i) विप. (आसि- प्रमृ.) । विकारे अन् प्र. (पा ४, ३, १५४) । j) सपा. आयसीभिः < > सीसाभिः इति पाभे. । k) द्रस. । l) नाप. [(अयशशया [मा ५, ८] इति मन्त्रोपलक्षिता-) उपसद्- L=होम-] । m) नाप. । n) नाप. (चुम्बक-) । o) नाप. (जाति-विशेष-) । उस. । p) द्रस. > तृस. । q) व्यप. (ऋषि-विशेष-) । r) आप, स्थूण- इति पाका. ? ।

-०णौ तैत्रा १३, १२१.

अयःस्थूणी- पा ४, १, ४१.

आयःस्थूण- पा ४, १, ११२;

-णाः बौध्रौप्र ४१ : १५.

अयःस्थूणीय-, अयःस्थूप्य-
पा ५, १, ४.

अ(यस्>)या-शय, या^a- -यम्
वाधुश्रौ ४, ५९^२: १०; -^१या^b
आपश्रौ ११, ३, १२; बौध्रौ ६,
२१ : १९; माश्रौ १२, ३, १६;
माश्रौ २, २, १, ३९; वाधुश्रौ ४,
६० : ५; वैश्रौ १४, ३ : ७;
हिश्रौ ७, ४, २२; ३०; -याम्
माश्रौ १२, ४, २.

अयो-घन^c- पा ३, ३, ८२.

^१अयो-जाल^d- -त्वाः अप ४१, १,
३; अत्र १९, ६६.

^१अयो-दंष्ट्र^d- -ष्ट्रान् या ५, ४;
-ष्ट्राय वंताश्रौ १४, १.

अयो-द(र्वि>)वी^e- -वीम् बौध्रौ
१०, १८ : २; -र्व्या बौध्रौ १०,
१८ : ४; वैश्रौ १८, ११ : १२.

अ(यस्>)योऽपाष्टि^e- -ष्टिः ऋप्रा
२, ४०^f.

अयो-मय- -यम् अप २१, ३, १.

अयो-मि(श्र>)श्रा^f- -श्रा आपध
१, २, ३५; हिध १६, १, ६७.

अयो-मुख^g- -त्वाः अत्र ११, १०^f.

अयोमुखी- -खी वृदे ५, १३३.

अयो-रजस्^c- -जांसि कौस् ८, १८.

अयो-लोह^h- -हे द्राश्रौ ५, ४, २;
लाश्रौ २, ८, ४.

२अयस्^h- (>आयसीय¹- पा.)
पाग ४, २, ८०.

१अयस्, अयास्¹- पाउ ४, २२२;
-यसा^k आपश्रौ ३, ११, २^३;
बौध्रौ १, २१ : १८; १९; हिश्रौ
२, ६, २^३; आपमं १, ५, १८^२;
हिश्र १, २६, १३^३; आम्रिश्र १,
६, ३ : ५६^३; २, ७, २ : २३;
२४; बौगृ २, ६, २९^२; हिश्र १,
२६, १३^३; -याः^{k1} आश्रौ १,
११, १३^४; शाश्रौ ३, १९, ३^४;
काश्रौ २५, १, ११^४; आपश्रौ ३,
११, २^४; ९, १२, ४; १०, ७, १४;
१४, १६, १; ३२, ६; बौश्रौ;
-^१यासः आपश्रौ १४, २९, ३;
बौश्रौ ९, ७ : १५; हिश्रौ १५,
७, १६; अप्राय ५, ६; या २, ७०^४;
-^१यासा^k आश्रौ १, ११, १३;
शाश्रौ ३, १९, ३; कौस् ५, १३;
९७, ४.

१अयस्मै योहस्मयः^m वाधुश्रौ ३, ७६;
३५.

अयःस्थूण- १अयस्- द्र.

अया इदम्- द्र.

१अया ऋप्रा २, ४४ⁿ.

अ-याचित- -त्तः माश्रौ ६, २, ४, ७;
वाश्रौ २, २, ३, १०; भागृ ३,

१४ : २१ⁿ; -तम् आपश्रौ १७,
१२, ३; बौश्रौ १०, ४८ : २४;
वैश्रौ १९, ६ : ४९; हिश्रौ १२,
३, ९; कागृ ५, ११; वागृ ६, १७;
वैगृ २, ३ : ६; बाध २३, ४३;
२४, २; २७, १६; बौध २, १,
६४; ६५; १०, ५२; ४, ५, ६;
विध ४६, १०; सुध ६२; -तेन
वाध ११, ७७.

अयाचित-प्रतिग्रह^o- -हः कौगृ ३,
११, ४४; शागृ ४, ११, १३;
वागृ ९, २०.

अयाचित-व्रत^d- -त्तः वाध २१, २०;
आपध १, २७, ७; हिध १, ७,
३२.

अयाचिता(त-आ)शिन्- -शिनौ अप
१०, १, ३.

अ-याचिन्- पाग ३, १, १३४.

अ-याजक->का(क-अ)नध्यापक^p-
-कौ वाध १३, ५०.

अ-याजनीय- -यः बौध्रौप्र ५४ : १५.

अ-याजयिष्यत्- -व्यन् वैश्रौ १२,
१ : ११^q.

अ-याज्ञिक- -कम् बौध १, ५, ६८.

अ-याज्य- -ज्यः बौश्रौ २४, १३ :
११; आपध २, १०, ९; हिध २,
४, ९; -ज्यम् काश्रौ २५, ८, १५;
आपश्रौ २२, ११, २; बौश्रौ १८,
४७ : २४; २४, १२ : ७; हिश्रौ
१७, ५, १; आगृ ३, ६, ८; कौगृ

a) विप. (वज्र-, तनू-, उपसद्-)। वैप १ परि. द्र.। b) पाप्मे. वैप १ परि. अयश्शया द्र.। c) नाप.।
d) विप.। वस.। e) वैप १, परि. च द्र.। f) विप. (मौञ्जी-)। तृस.। g) विप. [(अयोमय-लोहमय- [द्रस.])
रथचक्र-]। h) अर्थः व्यु. च ?। i) =देश-विशेष-?। j) अर्थः व्यु. च ?। <इदम्- इति भा (तैत्रा. २, ४, १,
९); <इ [गतौ] इति पाउ., सा (तैत्रा.); <अ + √यस् [प्रयत्ने] इति PW. प्र.। k) पाप्मे. वैप १ परि.
अयाः मै १, ४, ३^३ टि. द्र.। l) अयासि (<अयाः असि) इति च अया सन् (<अयाः सन्) इति चोत्तरेण
संधिरार्षः (तु. सा. तैत्रा.], आपमं [धू. XXVII] वैतु. भा. [तैत्रा] अया [प्र१ > इदम्-] इति [तु. वैप २, ३खं.]।
m) पाठः ? अयस्मय्योऽयस्मयः इति शोधः परामृश्यः। n) = ऋ ६, ६६, ४। स्वरूपम् ?। वैप १ परि. द्र.।
o) कस.। p) द्रस.। q) ण्यिष्यन् इति पाठः ? यनि. शोधः।

४, १, १; वाध २२, १; बौध २, ३, ८; ३, १०, ३; -ज्यस्य बौध ३, ६, ९; विध ४८, २२.
अयाज्य-त्व- -त्वात् मीस् ११, ४, ३४.
अयाज्य-याजक^१- -कः अप २, ६, ३; शंघ ३७७ : १४.
अयाज्य-याजन^२- -नम् विध ३७, १०; ५४, २५; गौध १९, ३; -ने काध २७४ : ५.
अयाज्य-याजिन्- -जिनः विध ८२, १५.
अ-यात्- -यान्तः लाश्रौ १०, ५, १२.
†अ-यात-याम, मा^३- -मा निस् ३, ११ : ८; -मानि शंघ १११;
 -मैः कप्र ३, ८, १८.
अ-यातयामता- -ताम् शांघ ४, ५, १४; -तायै निम् ३, ११ : ९; गोष्ट १, ८, ८.
†अ-यातयामत्व^४- -त्वाय बौश्रौ १३, २८ : ११; २९ : ९.
अ-यातया(मन् >) म्नी^५- -स्त्रियाः -स्त्रिया बौश्रौ ६, १४१३; -स्त्री चाञ्च ३८ : २.
अ-यातु^६- -तुम् अञ्च ८, ४१.
अयाथातथ्य- अयथातथ- द.
†अयामिन्^७- -मो शांश्रौ १२, २१, २.
†अ-याव^८- -वाः आपश्रौ १७, ५, १५; बौश्रौ १०, ४५ : ४०; हिश्रौ १२, २, १२.

†अ-यावन्^९- -वभिः^१ आपश्रौ १६, १७, ७; १९, ११, ६; बौश्रौ १०, २४ : १७; १९, १ : २८; वैश्रौ १८, १४ : २३; हिश्रौ ११, ६, १६; २३, २, ६.
अ-यावन्^{१०}- -ने ऋप्रा ११, २२.
अयावस्^{११}- (> अयावलीय- पा.) पाग ४, २, ८०.
अयाशया- १अयस्- द.
अ-याशु^{१२}- -शवः अप्रा ३, ४, ११.
अयास्- ३अयस्- द.
अयासोमीय- इदम्- द.
†अयास्य^{१३}- -स्यः शांश्रौ १०, १८, ४; १५, २१, १; बौश्रौ २, ३ : ५; वैश्र ५, ४ : १३; ऋअ २, ९, ४४; २, १०, ६७; साञ्च १, ५०९; अञ्च २०, १६; ९१; -स्यम् कौस् ५, १३; ९७, ४.
आयास्य^{१४}- -स्य आश्रौ १२, ११, १; आपश्रौ २४, ६, ११; हिश्रौ २१, ३, ९; बौश्रौ १० : ६; वैश्र ४, ४, १; -स्यम् लाश्रौ ६, ११, ४; निस् ५, १ : १७; ६, ९ : ७; -स्याः आपश्रौ २४, ६, १०; बौश्रौ १० : १; ५; हिश्रौ २१, ३, ९.
अयास्य-वत् आपश्रौ २४, ६, ११; बौश्रौ १० : ६; हिश्रौ २१, ३, ९; वैश्र ४, ४, १.
अयि^{१५}- > अयि-कार- > श्री√कृ, अधिकारीकृत्युः निस् ३, ११; १३.

अयिन्-, **अयिष्यत्-** √अय् द.
अ-युक्त- -क्तः काश्रौ १४, ३, ९; आपश्रौ ६, २८, ७; बौश्रौ १४, १९ : २२; २४; भाश्रौ ६, ६, ६; वाधुश्रौ ४, ८५ : १०; वैश्रौ २, ११ : ५; वागृ १, २२१; -क्तम् काश्रौ १०, २, ७; काश्रौसं ३६ : १; भाश्रौ १, ३, २१; वैश्र १, ११, १०^१; या ४, ११; -क्तानि अप ७०^२, २, १; ३२, ३३; -क्ते बौश्रौ १४, १९ : २०; -क्तैः शौच ४, ३.
अयुक्त-त्व- -त्वात् काश्रौ २, ८, ६; ४, ३, ७; १२, १, ९; २५, ७, ६; १३, ४४.
अ-युक्त्वा दाश्रौ १०, १, २; लाश्रौ ३, ९, २.
अ-युगपत् (?ट्) - > षटु (ट्-उ) - त्यञ्च - चानाम् या १, २.
अ-यु(गु)गू^१- -गूः कप्र ३, ९, ४; -ग्वा गोष्ट ३, ५, ४; द्रागृ ३, १, ३३^३.
अ-युग्म, रमा- -ग्मम् वैश्र ६, १ : ११; अप ४६, १, ९; -ग्माः बौपि १, ११ : २^४; १४ : २^५; १५ : १६; -ग्मान् काश्रौ ९, २, २२; २५, ८, १; आगृ २, ५, १४; कौगृ ३, १४, २; शांघ ४, १, २; पागृ ३, १०, ४८; आग्निगृ ३, १, १ : ३^०; आपगृ २१, २; वौगृ २, ११, १५; ३, १२, ७; वैगृ ४, ३ : ४; ४ :

a) षय. । b) वैप १, परि. च द्र. । c) पृ १५६ p टि. द्र. । d) पाशे. वैप १ परि. अयवोभिः टि. द्र. । e) तस. उप. भाप. <√यु [मिध्रणे] । f) अर्थः व्यु. च ? । g) पाशे. वैप १ परि. अयाः मै १, ४, ३^१ टि. द्र. । h) नाप. (साम-विशेष- [लाश्रौ. निस्.]), व्यप. (ऋषि-विशेष- [आश्रौ. आपश्रौ. प्रसृ.]) । तेनदृष्टमित्यर्थे (पा ४, २, ७) वा तस्यापत्यीयो वा अण् प्र. । i) अ० इति पाठः ? यनि. शोधः । j) इडा- इत्यास्याऽऽद्यक्षरस्य स्थाने वर्णव्यत्ययः । k) C. पाठः । l) नाप. ([मातुः] एकाकिनी-कन्या-)] । बस. उप. व्यु. ? । m) =अयोग्याया इति मन्वानो रुद्रस्कन्दश्चिन्त्यः । n) सप्र. अयुग्मा रात्रीः <> अयुग्मरात्रीः इति पाशे. । o) सप्र. अयुग्मान् <> अयुजः इति पाशे. ।

३; गोष्ठ ४, २, ३१; गौपि १, ५, ७; २, २, १४; कौसू २५, २४; अप ४४, १, १३; -ग्मानाम् वैगृ ५, १३ : १३; -ग्मानि कौष्ठ ३, १४, २; शांठ ४, १, ३; -ग्मासु वाध ४, १२; आज्यो १३, ३; -ग्मेषु आश्रौ १२, ६, १२; काश्रौ २१, ३, २; आमिष्ट ३, ६, ३ : २; ७, २ : १५; बौपि १, १७ : ३४; -ग्मैः वाग् १, ९.

अयुग्म-गण-मध्य(म >)मा^a- -मा काश्रौ १६, ७, २२.

अयुग्म-तम- -मम् बौश्रौ २०, २ : ३३.

अयुग्म-दिवस^b- -से बौपि ३, ६, ८.

अयुग्म-मान^c- -नानि कौसू ८५, ८.

अयुग्म-रात्रि^d- -त्रीः आमिष्ट ३, ८, १ : २^e.

अयुग्म-वत्^f- -वत् कौष्ठ १, १६, ११.

अयुग्म-वली^g- -लीम् माश्रौ २, १, २, १०.

अयुग्म-शि(ला >)ल^h- -लानि कौसू ८५, ११.

अयुग्मा(ग्म-अ)क्षरⁱ- -रम् वाग् ३, ३; शंघ २२.

अयुग्मा(ग्म-अ)युग्म^b- -ग्मम् बौश्रौ २०, २ : ३१.

अयुग्मे(ग्मा-इ)ष्टि(का >)का^c- -कानि कौसू ८५, ११.

अ-युग्म-संहत^l- -तम् गोष्ठ १, ७, ११.

अ-युज्^m- -युक् गोष्ठ २, ८, १६; -युक्षु काश्रौ १४, १, ५; लाश्रौ ६, ५,

२९; निस् ८, ८ : ४; आग् २, ५, १०; आमिष्ट ३, १, १ : १; आग् २, ११ : १; हिग् २, १०, १; हिपि १३ : १; ऋअ १, १२, ११; -युग्मिः वाश्रौ ३, ४, २, ६; हिपि ९ : ४; ११; १३ : १०; ऋअ २, १०, १०८; -युग्म्यः काग् ६३, ५; -युजः आपश्रौ १, ४, २; २०, १०, ७; बौश्रौ १, २ : १५; ६, ३४ : ५; १८, ५१ : २७ⁿ; भाश्रौ १, ३, १९; हिश्रौ १, २, ४३; ८, १, ६०; १४, ३, ४; लाश्रौ ६, ५, १६; २७; निस् १, ८ : ३; ५; ४४; आग् २, ५, १२; ४, २, २; ५, ३; हिग् २, १०, २^k; हिपि ९ : ४; १३ : ३; कौसू २, २२; वीध २, ८, ६; गौध १५, ८; ऋअ २, १०, ५२; वृदे ४, ४४; -युजाम् बौश्रौ १८, ५१ : २८; निस् १, ८ : ३३; ४३; -युजि वेज्यो १६^l; -युजौ निस् १, ८ : २८; ३९; ऋअ १, ७, ८; ८, ४; शुअ ५, ५४; ऋप्रा १६, ५७; पि ३, ३८; -युजि भाश्रौ १, ३, २२; द्राश्रौ ४, १, ९; लाश्रौ २, १, ८.

अयुक्-स्तोम^m- -मः निस् १०, ७ : २३.

अयुग्-अक्षरⁿ- -रम् बौग् २, १, ३०.

अयुग्-अर्थ^o- -र्थः आपश्रौ १, ४, ४.

अयुग्-घातु^p- -तु भाश्रौ १, ५, ११; माश्रौ १, १, १, ४०; २, ६, ७; हिश्रौ १, २, ६५; -तूनि काश्रौ १,

३, १४. अ-युज, जा^q- -जानि आश्रौ ७, ५, २; आग् १, १५, ७; -जाभिः वृदे ८, २६; -जासु आश्रौ ५, १४, २१; शाश्रौ ४, १५, ८; १४, १६, ४; आग् ४, ५, १; -जेभ्यः आश्रौ ८, ७, १६.

अयुज-कारम् हिपि ९ : ११.

अयुजा(ज-अ)क्षर^r- -रम् पाग् १, १७, ३; आपग् १५, ११.

अ-युत^s- पाउभो २, २, १३४; पाग् ८, १, ६७^u; फि ५६; -तः कौसू ९१, ३१^v; अअ १९, ५१^w; -तम् शाश्रौ १४, १५, ७; १५, १६, १६; १७; १६, ३०, ९; काश्रौ २३, १, ९; आपश्रौ २२, १२, १९; २१, १७; बौश्रौ १८, ७ : १; १९, ५ : १८^x; माश्रौ ४, ४, ३; वाश्रौ ३, ३, २, ६; हिश्रौ १७, ५, २२; ८, ३६; लाश्रौ ९, ४, २४; ५, १०; अप ३०, १, ६^y; ३०^z, २, ९; ४८, ६६^{aa}; ६९, ८, ४; वृदे ५, ३०; या ३, १०; ११, २; -तस्य शाश्रौ १५, १६, १८^{ab}; अप ७०, ७, ५; -तात् वाश्रौ ३, ४, २, ९; -तानाम् वृदे ६, ६१; -तानि काश्रौ १४, ८१, २; ८२, २; मु २३, १; २६, ४; -ते शाश्रौ १५, ११, ४; आपश्रौ १६, ३१, ११^{ac}; बौश्रौ १८, ४२ : १९; ४३ : ६; २६, ३३ : १०; वैश्रौ १८, २० : ५०^{ad}; हिश्रौ ११, ८, ४^{ae}; अप २५, २, ५;

a) विप. (इष्टका-). कस. > षस. (तु. कर्कः). b) कस. । षमे दि० इति R. । c) विप. । बस. ।

d) कस. । e) पाभे. पृ ३४७ n द्र. । f) विप. (।अयुग्माक्षर-। नामन्-). g) विप. (कृष्ण-विषाणा-). बस. उप. =वर्तुलरेखा-। h) कस. वीप्सायां क्वि. । i) विप. । तस. > कस. । j) वैप २, ३खं. द्र. । k) पाभे. पृ ३४७ o द्र. । l) नाप. (शुक्ल-पक्ष-). m) विप. (शुक्ल-, यून-). बस. उप. =नृणमुष्टि-प्रक्षेप-। n) वैप १, परि. च द्र. ।

o) विप., नाप. (संख्या-विशेष-). तस. उप. < √ यु [मिश्रणे] । p) =अनुपम- । q) वैप १, १०७२ b द्र. ।

३०^२, २, १; -तेन छुस् २, ९: १७. अयुतन्व- स्वम् शांश्री १५, १६, १८.
 अयुत-दक्षि(णा >)ण^०- णः काश्री २२, ११, ६; आपश्री २२, २४, ८; बौश्री १६, ३२: ५; १८, ७: १३.
 अयुत-होम^०- मम् अप ३०^२, १, १; २.
 अयुता (त-अ)क्ष (र >) रा^०- रा बौपि १, १५: ६९.
 अयुता (त-अ)भ्यास- सेन वाश्री ३, ४, २, १०.
 ?अयुधुः^० निघ २, १४^१.
 अ-युद्ध- खे गौध १४, १०^१.
 ?अ-युध-> आयुध्य- अयुध- टि. द्र.
 अ-युधिगम^०- मः शांश्री १२, २१, ५^१.
 ?अयुधुः^० निघ २, १४^१.
 †अ-युध्य- ध्यः शुप्रा ४, ६५.
 अ-युपित, ता^०- तः वाधूश्री ४, ६४^४: ७; -†ता^१ आपश्री १, ४, ११^{१६}; भाश्री १, ४, ५; माश्री १, १, १, ४०; ४३; वाश्री १, २, १, २१; वैश्री ३, ४: ११^{१६}; हिश्री १, २, ४५.
 अ-युचन्- वा काश्री ४, ९, ११.
 अ-यूति^०- > आयूतिक^१- के काग ५६, १^१.

अ-यूथिक^१- के माग २, १७, १^१.
 अ-यूप^०- -पम् काश्री २२, ७, ३^१; -पान् माग २, ५, ६.
 अ-यूपक^०- -कान् आश्री ९, २, ३^१.
 अ-यूप्य^०- -प्यान् माश्री १, ८, १, ४.
 अये पाग १, ४, ५७.
 †अ-योग^०- गः बौश्री २९, ८: २; आपध १, २३, ५; हिध १, ६, १३; -गम् अप ५८, १, ४^१; -गात् पावा ३, २, १२४; ४, १, १.
 †अ-योग^०- > ण-वाह^०- हाः अप ४७, १, ९; ३, ६^१; शुप्रा ८, १८; पाशि २१; -हानाम् पाप्रवा ५, ६.
 अ-योगक्षेम^०- मः बौश्री ६, ९: १; १०, १७: १; वैश्री १८, ११: १; -मम् अप ५३, ३, २.
 अयोगक्षेमा(म-आ)श(ङ्का >)ङ्का^०- ङ्कम् कौस् १२६, १; १२७, १.
 अयोगव^०- वः विध १६, ४.
 आयोगव^०- वः बौध १, ९, ७; वैध ३, १४, १; -वम् काश्री २०, १, ३६; -वात् वैध ३, १५, ७; -वानाम् विध १६, ८.
 आयोगव-मागध-वैण-क्षत्त-पुल्क-स-कुक्कुट-वैदेहक-चण्डाल- -लाः बौध १, ८, ८.
 अ-योग्य, ग्या^०- ग्यम् काश्री २२,

४, १३; -ग्यया वाध १२, ७.
 अयोग्य-कर्म-कारिन्- -री विध ५, ११६.
 †अ-योनि^०- नौ बौश्री २८, १: ३०; २: ५२; आमिग २, ४, ४: २; ७, ५: १; बौध ३, ७, २; ४; ४, १, २१; २, १३; आपध १, २६, ७; विध ५३, ४; हिध १, ७, १८; गौध २५, १०; मीस् ७, २, १८.
 †अ-योनि^०- नथे^१ वैताश्री २०, १७; -नौ बौश्री १८, ४८: १४.
 अ-योनि^०- -केषु काश्री ९, ५, २४.
 अ-योनि-ज- -जाः बौध १, ५, १०८.
 अ-यो(य-उ)प(धा >)ध^०- -धात् पा ४, १, ६३.
 अ-योधिक- पाग ६, २, १६०^१.
 ✓ अर् > १* अर् > - > † अर्म् > हिश्री १२, ६, ६; १५, ५, ४; जैश्री १२: ४; आपम २, ७, १५^१; बुदे ४, ५३; साअ १, ११८; ११९; २०९; या ६, २१; ऋप्रा २, ६८.
 अर् > † अर्-कृत^०- तः हिश्री ६, ३, ११; हिपि १८: ३; -ताः माश्री २, ३, १, १६; या १०, २०^१.
 अर् > † अर्-गम् > अर्-गम- -नाय आपश्री १४, २९, २^१.
 अर् > † अर् > (शब्दे) > † अर्-गर^०- -रः शांश्री १२, १६, १; १;

a) विप.। बस.। b) नाप. (होम-विशेष-)। पस.। c) अर्थः व्यु. चर्। d) युद्धे इति संस्कृतेः टि.। e) वैप १, परि. च द्र.। f) पाभे. वैप १ परि. अयुपिता टि. द्र.। g) आयु^० इति पाठः? यनि. शोधः (तु. सप्र. मै १, १, २)। h) = अ-यूध-। तस. उप. ✓ यु [मिश्रणे] + क्तिन् प्र. धा. दीर्घश्च (पा ३, ३, ९७)। i) विप. ([असहाय-] कपोत-)। तत्रभवीयष् ठक् प्र.। j) सप्र. आयूतिके <> अयूथिके इति पाभे.। k) = यूधप्र-। तस. उप. यूध- + मत्वर्थीयष् ठन् प्र.। l) सप्र. अयूपम् <> अयूपकान् इति पाभे.। m) तस.। n) तस. उप. = संयोग- वा मनःस्थिरता- वा। o) नाप. (अनुस्वार-विसर्गादि-)। उस.। p) नाप. (श्रद्धाद् वैश्यायां वा वैश्यान् क्षत्रियायां वा जात-अपत्य-)। व्यु. ?। q) स्वार्थे अण् प्र.। r) योनये इति C.। s) तस. > बस.। t) ऋक्- इति भारुडा.। u) वैप १, ३९७ p द्र.। या १, ८; २. २५ अप्यत्रैव परामृष्टः द्र.। v) तु. वैप १, ३९८ a, b।

आगृ २, ९, ४.

†अरित्- ता या ९, ४०.

†अरित्- पा ३, २, १८४.

२अर- -ऋः आश्रौ २, १७, १५;

३, ७, १२; शाश्रौ ६, १०, ८;

बौशु १६ : १३६; या ४, २७०;

ऋप्रा २, ४२; -राणाम् बौशु

१६ : १९; -ऋन् आश्रौ १, ३,

६; शाश्रौ १, ४, २१; †बौशु

१७, २९ : ६; १८, ४१ : २;

बौशु १६ : १७; तैप्रा ९, २१;

शैशि २२९; याशि २, ७०;

माशि १०, ९.

३अर-> ✓अर्थ अर-द्र.

†अरः अप ४८, ९१†.

अ-रक्त- -क्तम् बाध ११, ६७.

अ-रक्त-विकार- -रे पा ६, ३, ३९.

अ-रक्त-संधि- -धि ऋप्रा ११, ३४.

†अरगराट- -रेषु वैताश्रौ ३०, १३;

कौस् १०, २४; १२, १५; १३,

६; १३९, १५; अप १८, १५,

१; ३२, १, १०; २८; अत्र ६,

६९; अप्रा ३, ४, १.

†अ-रजनी-कृत- -तः बौध २, १,

५६; हिध १, ६, ३४.

अ-रजस- (> ✓अरजाय पा.) पाग

३, १, १२.

अ-रजो-वि (त >) ता- -त्ते

कौस् ३७, ५.

अ-रज्जु-वा-द- > द्वा- -द्वा काश्रौ

७, ६, १२.

अ-रज्जु-वादि- -दीनाम् पावा ४,

१, ६६.

अरु- पाउभो २, १, ४९.

अरुडा- -डाम् गोग ४, ४, २८.

अरुड- (> अरुडक- पा.) पाग

४, २, ८०.

†अरण- -णः शाश्रौ ४, १२, १०;

१३, १; आपश्रौ ६, २१, १;

१३, १६, ८; आगृ ३, ५, ७;

कौगृ ३, ७, १०; शांगृ ४,

५, ८; उनिस् ७ : ३१; या

२, १४; ३, २०; ३; -णम् या

३, १०; -णस्य आपश्रौ १३,

१६, ८; या ३, २; -णात् या

६, ३२; -णे या ११, ४६.

अरण-स्थ- -स्थः या १, १८.

२? अरण-> अरण्य- पाउ३, १०२;

पाग २, ४, ३१; ४, २, ९०; फि

६७; -ण्यम् शाश्रौ १५, १८-१९,

१; १६, १६, १; काश्रौ २१, १, १७;

आपश्रौ १४, १३, ७; २०, २४,

१६; माश्रौ ५, १, ६, २१; २, १४,

२२; हिश्रौ १०, ७, २; १६; १७,

३, २४; द्राश्रौ १४, ४, २; लाश्रौ

५, ८, २; ९, ८, १५; निस् १०,

११; ६; कौगृ ३, ४, २१; शांगृ ३,

५, २१; पागृ ३, ८, ३; हिपि २० :

५; गोगृ २, ९, २४; जैगृ १, १७ :

८; १२; अप ७०, ५, ४; ६, १;

आपध २, २२, १६; बौध २, ६,

१९; हिध २, ५, १४७; या ९,

२९; -ण्यस्य आपश्रौ १५, २१,

८; बौश्रौ ९, २०-१९; माश्रौ ११,

२२, ११; बौगृ ३, ४, ३४; कौस्

१०६, २; १२६, ३; या ९, २९;

-ण्यात् शाश्रौ १५, १८-२०, १;

पागृ २, ५, ९; जैगृ ६५ : ७;

आपध ११, २४; बौगृ २, ५,

४५†; जैगृ १, १६ : २; अप्राय

२, ७†; आपध १, ४, १४; हिध

१, १, १३३; पा ४, २, १२९;

पावा ४, २, १०४; -ण्यानि

आपश्रौ २१, १२, ३†; हिश्रौ

१६, ४, ३५†; कप्र ३, २, १५;

या ९, ३०†; -ण्याय वैताश्रौ

३८, १४; कौगृ ३, ४, १†; शांगृ

३, ५, १†; अप ७१, ३, ३; -ण्ये

शाश्रौ ४, १५, ८; २०, १†; १५,

१८, १; १९, १; काश्रौ २५,

१३, ४५; बौश्रौ.

अरण्यानि- > ? अर-

ण्यानि- पा ४, १, ४९; -†०नि

ऋअ २, १०, १४६; वृदे ८, ५७;

या ९, ३०; -नी वृदे १, ११२;

२, ७४; निघ ५, ३†; या ९,

२९†; -नीम् ऋअ २, १०, १४६;

-न्याः वृदे ८, ५७.

अरण्य- पावा ४, २, १०४;

-ण्यः अप ७०, ११, २६;

-ण्यम् आपश्रौ ४, ३, ७; १४,

७, १; बौश्रौ †१०, ३४ : २; ६;

१०; १४; १८; २०, ४ : ४२;

४३; माश्रौ ४, ४, ५; माश्रौ ४,

८, १; ५, २, १२, १८; वाधूश्रौ

४, २८ : २; ५; वाश्रौ १, १,

२, ९; ३, २, ६, ३६; हिश्रौ ९,

८, ३५; लाश्रौ ८, २, ९; अप

३१, ७, २; शंघ १५९ : २;

a) वैप १, परि. च द्र. । b) नाप. (हिरण्य-). पाठः ? । सपा. निघ १, २ अयः इति पाठे. । c) तस. >

द्रस. । d) विप. । बस. > तृस. । e) वैप १ द्र. । f) तस. उप. च्यन्तम् । g) विप. । बस. । h) विप.

(। अरजस्का-। कुमारी-). तस. > बस. । i) विप. । तस. > तृस. । j) तस. > बस. । k) अर्थः व्यु. च ? ।

l) व्यप. स्त्री. (देवतात्वेनोपचरित-। ऋष्युपकरण-विशेष-). व्यु. ? । m) = देश-विशेष- ? । n) तु. वैप १, ४०० f ।

o) तु. वैप १, ४०१ e ।

आपध २, २२, १; २०; बौध ३,
३, ४; हिध २, ५, १३१; १५१;
-ण्यस्य काश्रौ ४, ६, १७; बौध्रौ
२४, १४ : २^१; भाश्रौ ४, ४, ५;
७; माश्रौ १, ४, १, १०; वैश्रौ ३,
२ : २२; हिश्रौ ६, १, ३६;
-ण्याः आपश्रौ १६, १९, १४;
†१७, १९, २; ३; बौश्रौ ४, ६ :
२४†; २४, ५ : १४^३; १७; २०;
माश्रौ †१, ८, ३, ३; २३; ३,
६, ४; ६, १, ६, १; २, ५, २८;
वाश्रौ १, ५, २, १७†; वैश्रौ १८,
१६ : २०; १९, ६ : ११७†;
१२०; हिश्रौ ११, ६, ४५; ४६;
१२, ६, ५; अप ७०^३, ५, ४; वाध
२, २८; शुअ ३, ४३; †अअ ११,
२; १२, १; शुआ ३, १५०†;
-ण्यान् शाश्रौ १६, ३, २८;
आपश्रौ २०, १४, २; १७, ५;
वौश्रौ १५, १६ : ८; २३ : ११;
२६ : १२; १३; २८ : १९; २१ :
१७; ३४ : ४; वाध्रौ ३, ८६ :
११; वाश्रौ ३, ४, ३, २२; २३;
४, ६; वैश्रौ ३, ९ : ७; हिश्रौ
१४, ३, ५१; ५५; अश्रौ ५, ६;
बौध १, २, २०; -ण्यानाम् वौश्रौ
२९, २ : १५; वैश्रौ ८, २ : १३;
हिश्रौ ३, ८, ७३; अप ६४, ४,
७; हिध २, ५, ३१; -ण्यानि
वाश्रौ २, २, ४, ९; -ण्याय
आपश्रौ ४, ३, ११; हिश्रौ ६,
१, ३८; -ण्येन वाश्रौ १, ७, ४,
६३; हिश्रौ १२, ५, ३४; आमिष्ट
२, ६, ६ : ३०; बौध १, २, ५२;

२, ११ : ५२; आपध २, २२,
१७; हिध २, ५, १४८; -ण्येभ्यः
वाध्रौ ४, १०४ : ४; १२; -ण्यैः
आश्रौ ३, ९, १; काश्रौ ४१, २३†;
गोश्रौ ४, ८, १५; द्राश्रौ ४, ३, ३;
बौध २, १०, ५७.

आरण्य-काण्ड^६- ण्डम् वैष्ट
२, ११ : ११^७.

आरण्य-पशु-घातिन्^८- ती
विध ५, ५२.

आरण्य-भोजन- नम् मीस्
१२, १, ३०.

आरण्य-मूल-फल^९- लैः
आमिष्ट २, ७, १० : ६.

आरण्य-वत् मीस् ११, २,
४९.

आरण्य-शाक-मूल-फल-
भक्ष^{१०}- अः कौस् १२६, ४.

आरण्य(रय-अ)ज्ञान- नम्
आपश्रौ १०, ४, १२; हिश्रौ ७, १,
७६.

?आरण्येऽनुवाक्य^{११}- क्यः
हिश्रौ ९, १, ३७; -क्याः हिश्रौ
१२, ३, ३; -क्येन हिश्रौ १३,
५, ९०.

आरण्य-गोचर- रः वृदे ३, १४२.

आरण्य-चरित- तः अप ४१,
३, ७.

आरण्य-ज- जाः आपश्रौ १६,
१९, १३^६.

आरण्य-निकेतन^{१२}- नः बौध २,
१, ३.

आरण्य-नित्य^{१३}- त्यः वाध १०,
१५; -त्यस्य वाध १०, १७.

आरण्य-मृग-जाति^१- > तीय-
-याः अप ७०^३, २३, ८.

आरण्य-वास-मिय^{१४}- यः आमिष्ट
२, ७, १० : १२.

आरण्य-वासिन्^१- -सिनः आपध
२, ९, १३; बौध २, ७, २२; १०,
५३; हिध २, १, १२८.

आरण्य-वृत्ति^{१५}- -त्तिः वैध ३,
१४, २.

आरण्य-संभव^{१६}- -वाः अप ६७,
३, १.

आरण्यीय- पा ४, २, ९०.

आरण्ये-नेय, या^{१७}- -यः लाश्रौ ७,
५, १३; -यम् छसू ३, ५ : १५;

लाश्रौ ६, ४, ३; ७, २, १; १०,
२, १४; -याः लुसू ३, ७ : ८;

-यानाम् बौश्रौ १६, ४ : १०;
द्राश्रौ १२, १, ३५; -यानि

द्राश्रौ ९, ३, ८; लाश्रौ ३, ६, २८;
-ये द्राश्रौ ८, ३, १२; लाश्रौ

४, ७, १; -येषु लाश्रौ ७,
८, ५.

आरण्ये(रये-अ)धीत^१- -तेन माश्रौ
६, १, ७, २०; २, ५, २३.

आरण्ये(रये-अ)नुवाक्य, कया^{१८}-

-क्यः आपश्रौ १३, ४, ४^{१८}; १५,
१९, १; बौश्रौ १०, ५३ : ५^३;

१२, १० : ३; भाश्रौ ११,
१९, ९; माश्रौ ४, ४, ४३;

-क्यम् आपश्रौ १७, १७, १;
२०, २१, १०; -क्यस्य आपश्रौ

१७, १७, ४; हिश्रौ १२, ५, ३२;
३४; ३७; -क्याः^{१९} आपश्रौ ५,

१५, ४; १७, ८; -क्याभिः भाश्रौ

a) कस. । b) अ इति संस्कर्तुः टि. ? । c) कस. > उस. । d) कस. > द्वस. e) विप. । कस. > द्वस.

> उस. । f) पाठः ? सप्र. मै ३, ३, १० आपश्रौ. अर इति पाभे. । g) आर इति पाठः ? यनि. शोधः (तु.
C.) । h) विप. । बस. । i) षस. > षस. । j) नाप. । k) विप. । उस. उप. कृत्यः प्र. । l) विप.

(अनुवाक-) । m) विप., नाप. (मन्त्रगण-विशेष-). शिष्टं वैप १, परि. च द्र. । n) सप्र. पाभे. f टि. द्र. ।

५, १०, १३; -क्येन आपश्चौ
१७, १६, १६; १७, २; ७; १८,
१२, १२^३; बौश्रौ २१, २१ :
१५; वाश्रौ ३, ४, ५, ११; वैश्रौ
१२, ६ : १०७.
अरण्येऽनुवाक्य-मृतीय^b- -यैः
आपश्चौ १८, १२, १२.
अरण्ये(रग्ये-अ)नूच्य^c- -च्यम्
काश्रौ १८, ४, २०; २४; -च्ये
काश्रौ १८, ५, १.
अरण्यौ(रग्ये-अ)दुम्बर^d- -रे आपश्चौ
१७, २६, १५.
१अरणि, णी^e- पाठ २, १०२; -णिः
बौश्रौ १८, ५० : २९; वैश्रौ १,
१ : २९; कप्र; -णिभ्याम् काश्रौ
१२, ३, १०; बौश्रौ २१, ७ : ७;
माश्रौ; -णिम् बौश्रौ २, १६ :
३२; २७, ७ : ६^f; वैश्रौ; -णी
आश्रौ २, १, १६; ३, १०, ५;
८; १२, २२; शाश्रौ; या ५,
१०^g; ८, १५; -णीः भाश्रौ
१०, १२, २०; हिश्रौ १०, ३,
१३; -णीभिः आपश्चौ १०, १९,
१३; -णीभ्याम् आपश्चौ १०,
१९, १३; २१, ७, ३; बौश्रौ २१,
१२:२७: भाश्रौ ५, ७, १६; १०,
२; हिश्रौ १६, ३, २२; -णीम् वैश्रौ
१, १० : ९XX; आश्रु; बौपि २, ५,
१^h; -णीषु आपश्चौ ६, २८, ८, ९,
१, ९XX; बौश्रौ; -ण्या आपमं
१, ११, ८^f; -ण्याः बौश्रौ २७, ७:
६^f; -ण्याम् वैश्रु ३, १४:१४:४,
१ : २२XX; वैध; -ण्याः आश्रौ
८, १२, २; २६; शाश्रौ; या

५, १०^f; -ण्यौ कौसू ६९,
१७.
अरणि-गत- -तम् बौश्रौ २७, ५ :
२; ८ : ४; -तानाम् बौश्रौ २७,
५ : १.
अरणि-नाश- -शे वाश्रौ १, ५, १, १.
अरणि-पाणि^b- -णिः काश्रौ ७, १,
३०; वाश्रौ १, ४, १, १५; -णी
माश्रौ १, ५, २, ६; माश्रु २, १,
४; अप्राय ४, ४.
अरणि-प्रदान^c- -नम् पाश्रु १, २, ५.
अरणि-मत्- -मन्तम् आश्रौ २,
२, १.
अरणि-विनाश- -शेन बौश्रौ २९,
१२ : १७.
अरणिविनाशो(श-उ)क्त-दोष^d-
-वः बौश्रौ २९, १२ : १५.
अरणि-शकल^e- -लम् वाश्रौ ३, २,
१, ५०.
अरणि-संभार^f- -रम् वाश्रौ १, ४, २,
१०.
अरणी-कल्प^g- -ल्पेन आश्रु २,
७, २ : ३४; हिश्रु १, २६,
१९^h.
अरणी-नाशⁱ- -शे आश्रौ ३, १२,
३०.
अरणी-हस्त^j- -स्तः बौश्रौ १६,
३ : २९.
अरण्य(रिण-अ)न्त^k- -न्ते कप्र १,
८, ४.
अरण्य(णि-अ)र्ध^l- -धेन अप २२,
६, ५.
अरण्य(रिण-अ)व्यव^m- -वाः कप्र १,
७, १०.

अरण्य(रिण-अ)दि-पात्रⁿ- -त्राणिः
वैध २, ५, ८.
अरण्यु(णि-उ)परि^o अप २२, ८, १.
†२अ-रणि^p- -णिम् अत्र १, १८.
अरण्य-अरण्यानि-प्रभृ. २?अरण-द्र.
†अरति^q- पाठ ४, ६०; ५, ७; -तिः
आपमं २, ११, २५^f; -तिम्
आश्रौ ८, ६, २३; आपश्चौ.
अरत्नि^r- पाठना ४, २; -त्यः
आपश्रु १५, ८; हिश्रु ५, १३;
-त्निः आपश्चौ १, ३, १७; वाधूश्रौ;
-त्निना आश्रौ ५, ६, १०; आपश्चौ;
-त्निभिः आपश्चौ ७, ३, ९; बौश्रौ;
-त्निभ्याम् आश्रौ ६, ५, ४; बौश्रु
१२ : १०; -त्निम् बौश्रौ ६,
२५ : १३; माश्रौ; -त्नी काश्रौ
९, १०, ६; ८^f; आपश्चौ; -त्नौ
आपश्रु ६, १४; बौश्रु १ : ७;
हिश्रु २, ४३; -त्न्योः विध ९६,
६३.
अरत्नि-प्रमा(रा>)णा^s- -णा अप
२४, १, ६.
अरत्नि-प्रादेश^t- -शानाम् आपश्रु
२१, १४; बौश्रु २१ : १२; हिश्रु
६, ७१.
अरत्नि-मात्र, त्रा- -त्रः काश्रौ १,
३, ३९; -त्रम् शाश्रौ १७, १,
११; बौश्रौ ६, २४ : १६; १०,
३३ : ८; माश्रौ १, ७, ३, २५;
२, ३, १, १८; वैश्रौ १८, १८ :
६; आश्रु २, ३, १ : ४; ८;
वैश्रु ५, १३ : ११; आपश्रु ७, २;
बौश्रु ४ : ११; हिश्रु २, ४९;
-त्राः बौश्रौ २०, १६ : १३;

a) पाभे. पृ ३५१ f द्र. । b) विप. । बस. । c) नाप. (मरुत)पुरोडाश- । उस. क्यबन्तम्
(तु. वैप २, ३खं.; वैतु. विद्याधरः बस. इति) । d) कस. । e) वैप १, परि. च द्र. । f) णी इति B. ।
g) षस. । h) तुस. > कस. । i) णी क० इति पाठः? यनि. शोधः (वैतु. णिः इति संस्कर्तुरभिमतः
शोधः) । j) बस. > कस. । k) दस. ।

माश्रौ १,२,१,६; -त्राणि शांश्रौ
१७, २, ८; बौश्रौ ६,१० : ८;
१०,१२ : ४; द्राश्रौ १०, ४,५;
लाश्रौ ३, १२, ४; -त्रात् काश्रौ
१७, १२, २३; -त्राम् माश्रौ २,
१,४,३४; -त्रे काश्रौ ८, ५, २२;
१६, २, ५; १७, ४, २८; ५, ३;
माश्रौ २, २, २, १३; -त्रे-ऽत्रे
बौश्रौ २२, १३ : १६; -त्रेण
बौश्रौ १७, २८ : ९; १२;
२९ : ८; ३० : ७; -त्रौ बौश्रु
१२ : ५.

अरुक्-मात्र-^१ -त्री काश्रौ
१६, २, ५; आपश्रौ ६, ३, ६;
काठश्रौ ७; काश्रु ४६ : ३;
वाश्रौ १,५,२,१०; -त्रीः वाश्रौ
१,२,४, २; -त्रीम् काश्रौ २६,
१,४; आपश्रौ १६, १, ७; ४, ७;
बौश्रौ ९, १ : २; माश्रौ १, ७,
३, १४; वैश्रौ १३, १ : ६; हिश्रौ
११, १, ११; ५२; -त्र्यः आपश्रौ
१, १५, १२; १६, १३, ६; माश्रौ
१, १६, ६; वैश्रौ १८, ११ : २२;
हिश्रौ १, ४, ३२; आपश्रु ११,
२; हिश्रु ४, ३१.

अरुक्-मात्र-द(एड >)ण्डा^२-
-ण्डाः माश्रौ १,२,१,६.
अरुक्-मात्र-शीर्ष(ण्य >)ण्या^३-
-ण्या वाश्रौ २, १, ३, ४.
अरुक्-मात्र-शीर्षण्या (एय-अ)-
नू(च्य >)च्या^४ -च्या आपश्रौ
१०, २९, ७; १६, १०, १६; १९,

९, १०; माश्रौ १०, २०, ८; वैश्रौ
१२, २१ : २; १८, ६ : ५; हिश्रौ
७, ३, २२; ११, ३, ३८; २३, १,
४८.

अरुक्-मात्र-श्रुति^५ -तेः काश्रौ
१७, ४, २१.

अरुक्-मात्रा (त्र-अङ्ग >)ङ्गी^६-
-ङ्गीम् काश्रौ ७, ९, २४.

अरुक्-मात्रा(त्र-आ)यत^७ -तम्
वैश्रौ ११, ९ : ३.

अरुक्-वितस्ति^८ -स्तीनाम् काश्रु
५, ११.

अरुक्-सविशेष^९ -वेण बौश्रु १२:
११.

अरुक्-न्त्य(न्नि-अ)न्तर^{१०} -रम् काश्रौ
१७, ११, २.

अरुक्-न्त्य(न्नि-अ)न्तराल^{११} -लौ बौश्रु
१२ : ५.

अरुक्-रथ^{१२} -थाः ऋपा २, ४०; तैपा
१२, ७.

अरुक्-रथंतर^{१३} -रम् द्राश्रौ ८, १, ९;
लाश्रौ ४, ५, ९.

अरुक्-रपस्^{१४} -पः या ४, २, १०; -पाः
आश्रौ २, ७, १३; आपश्रौ १४,
२९, १; अप ३, ४, १.

अरुक् √अर् द.
अरुक्-मण^{१५} -णम् या ९, २९.

?अरुक्-मुद्यत- अस्त्यद्यत- टि. द्र.

अरुक्^{१६} - (> √अर्थ पा.) पाठ
३. १३२; पाग ३, १,
२७^१.

अरुक्^{१७} - (> अरुक्क्य^{१८} - पा.

[> अरुक्क^१ - पा.]) पाग ४,
१, १०५; २, १११.

अरुक्-रिन्द^{१९} -न्दानि अप ४८, ७५;
निघ १, १२.

अरुक्-रिवस्^{२०} -रुषः आपश्रौ ६, १७,
१२; १४, २९, ३; बौश्रौ ९, ७:
१४; हिश्रौ ६, ६, १६; १५, ७,
१६; अप्राय ५, ६.

अरुक्-रु^{२१} -पाठ ४, ७९; -रुः आपश्रौ
२, १, ५^२; ८^३; २, १३^{०२}म;
बौश्रौ^{२४} १, ११:७; १२:१७; २१:
२५, ३:३; ४; माश्रौ २, १, ७^२;
९; १३; १४; वैश्रौ ४, ११ : ९^२;
१५^२; १७^२; १२:१३^२; हिश्रौ
१, ६, ६८^२; ७८^२; ८१^२; ८५^२;
९२^२; -रुम् काश्रौ २, ६, १४;
आपश्रौ २, २, १; ४; माश्रौ १, २,
४, १६; वाश्रौ १, ३, १, ४६; हिश्रौ
१, ६, ६८; शुश्र १, ८२; -०रो
काश्रौ २, ६, १५; माश्रौ २, १,
११; वैताश्रौ २, ४^०; शुश्र १,
८२.

अरुक्^{२२} - > °रु-कपित्थ-कोविदार-
शलमलि-श्लेष्मातक-नीप-निम्ब-
तिलक-वाधक-विभीतक-राज-
वृक्ष-करञ्ज-पलाण्डु-वर्जम् बौश्रौ
२८, १३ : १४.

?अरुक्-रपति^{२३} निघ २, १४१.

अरुक्^{२४} - > °लु-दण्ड^{२५} -ण्डम् कौसु
४३, १.

अरुक्-रवमाण- -णम् शांश्रौ ४, १७,
११.

a) वैप १, परि. च द्र. । b) विप. । बस. । c) विप. । यस. उप. द्रस. । d) षस. ।

e) कस. । f) द्रस. । g) षस. वा. क्वि. । h) अर्थः व्यु. च? । < √ ऋ इति पाठ. । i) भारडा.
प्रमृ. अरुक्- इत्यपि । पाका. अरुक्- (> √ अर्थ) इति ? । j) नाप. वा व्यप. वा । अर्थः व्यु. च? । k) व्यप.
(अरुक्काऽपत्य-) । l) नाप. (अरुक्क-शिष्य-) । m) पाभे. वैप १ परि. अरुक्ः तै १, १, १, १ टि. द्र. । n) पाभे.
वैप १, १६, ७४ k द्र. । o) पाभे. वैप १ परि. अरुक्ः मै ४, १, १०, टि. द्र. । p) नाप. (वनस्पति-विशेष-) ।
व्यु. ? । q) पाठः (तु. लघुशाखीयः मूको.) ? । अरुक्व्यति इति दे. ।

अरविन्द^१- पावा ३, १, १३८;
(> ०न्दिन्- पा.) पाग ५, २,
१३५.

अ-रदिमक^२-कान् आगृ २, ६, ४.

१अ-रस^३- (> आरस्य-) पा ५, १,
१२१.

२अ-रस^४-सम् या १४, ३; -सस्य
कौस् १३९, ८१.

अ-रसा(स-आ)श^५- -शम् कौस्
१४१, ४४.

अ-रसा(स-आ)शिन्- -शिनः कौस्
८२, ३३; -शी कौस् ४२, १८;
५७, ३२.

अ-रहस्य^६-स्थानाम् द्रागृ ३, २, २२.

अ-रागद्वेषिन्- -षिणः विध १२, ३.

अ-राजन्- पागवाद्, २, १६०; -जमिः
आपथ्रौ २०, ४, २; द्विथ्रौ १४,
१, ३८; -जा शंघ २५४; -जानः
आपथ्रौ २०, ५, १३; बौथ्रौ १५,
५ : १९; -ज्ञः वाधुथ्रौ ३, ९२ :
५; -ज्ञाम् आपथ्रौ २०, १५, ८;
बौथ्रौ १५, १ : १८; ५ : ११;
२५ : १; ७; २९; २७; ३० : १७;
वाधुथ्रौ ३, ७९ : ३.

अ-राजसूययाजिन्- -जिनाम्
निम् ७, ५ : २८; -जी निम् ७,
५ : २३.

अराटकी^७- -की अप्रा ३, ४, ११.

अराट्^८- -ट्टाः बौथ्रौ १८, ४४ : २३.

†अ-राति^९- -तयः आथ्रौ २, ३, ७;

९; काथ्रौ; आपथ्रौ १, १९, ३^h;
२०, ७ⁱ; २२, ३^j; २३, ३^k;
७, १९, ८^l; या ३, ११०; -तये
द्विथ्रौ १, ५, २०; -तिः शांथ्रौ
१७, ३, १६५; काथ्रौ; -तिम्
आपथ्रौ ३, १०, ४; ४, ६, ५;
भाथ्रौ; -तीः आपथ्रौ ३, ९,
१०; ५, १२, ३^h; बौथ्रौ २, १६ :
५४XX; २४, २९; १६^l; भाथ्रौ;
या ११, २०; -त्याः अत्र १३,
४(५); -त्ये^m आपथ्रौ १, १८,
३; बौथ्रौ १, ५ : २३; भाथ्रौ १,
२०, २; वाथ्रौ १, २, ४, ३०.

†अराति-हन्- -हनम् आपथ्रौ १६,
३०, १; वैथ्रौ १८, २० : ४२;
द्विथ्रौ ११, ८, ४.

†अरातिघ्नी- -घ्नीः आपथ्रौ १६,
३३, १; वैथ्रौ १८, १६ : ५९.

√अराति, ती^{१०} य, अरातियात् अप्रा
३, १, १४†; अरातीयति बौथ्रौ
३, १८ : २३; ७, ४ : १८XX;
वैथ्रौ; †अरातीयात् आपथ्रौ ४,
७, २ⁿ; १६, १०, ५; बौथ्रौ;
द्विथ्रौ ६, २, १७ⁿ; ११, ३,
२१.

†अरातीयन्- -यन्तः बौथ्रौ ३,
१६ : ६XX; या ७, २०; १४,
३३; -यन्तम् आपथ्रौ ७, १७,
६; ७; बौथ्रौ.

अरातीयु- -योः वैताथ्रौ १०,

२; कौस्.

अराती(य>)या- -याः अत्र ५,
७^३§.

†अराती-वन्- -वा बौथ्रौ १५, ६;
४; ऋप्रा ९, ११.

?अरातिका^{११}- -काम् वाधुथ्रौ ४, ७५ :
४; ८.

†अ-राद्धि- -द्धिम् द्राथ्रौ १०, ३, ४;
लाथ्रौ ३, ११, ३; -द्धयै शुप्रा
६, २६.

†अ-राधस्^{१२}- -धसम् या ५, १७०.

†१अ-राय^{१३}- -यासः या ६, २५०.

†२अ-राय^{१४}- -यः^{१५} आथ्रौ ३, १३, १८;
आपथ्रौ ३, ११, २; भाथ्रौ ३,
१०, २; द्विथ्रौ २, ६, ११.

३अराय^{१६}- > †अरायी^{१७}- -०थि
ऋअ २, १०, १५५; वृदे ८, ६०;
या ६, ३००.

†अराय-अयण^{१८}- -णम् कौस् ८,
२५; अप्र ३२, १, ३.

अराल, ली^{१९}- पाउभो २, ३, १००;
पाग ४, १, ४५; ७३.

†अराला(ल-अ)ञ्च्^{२०}- -लाक् शांथ्रौ
१२, २३, १.

†अरावन्^{२१}- -वा^{२२} भाथ्रौ २, ५, ४,
९; वैताथ्रौ २३, १२.

अरि^{२३}- पाउ ४, १३९; -†रयः अप्र
४८, ७८; वृदे ८, ४५; -†रिः
शांथ्रौ १२, १५, २; १८, ४, ७;
५, ७; या ५, ७०; -रिम् मागृ

a) नाप. (कमल-)। व्यु. ?। पूष. २अर-इति पावा.। b) विप.। बस.। c) तस.। d) तस.
उप. रस- + आश- (आप. < √अश् [भोजने])। e) बस. उप. = आरण्यक-नामन्-। f) वैप १,
परि. च द्र.। g) = देश-विशेष- ?। व्यु. ?। h) पाभे. वैप १ परि. अरातयः मा १, १४ टि. द्र.। i) पाभे.
वैप १ परि. अरातयः मा १, १६ टि. द्र.। j) पाभे. वैप १ परि. अरातयः तै १, १, ७, १ टि. द्र.। k) पाभे.
वैप १ परि. अरातिम् शौ १२, २, ४५ टि. द्र.। l) ऋतीः इति पाठः ? यनि. शोधः (तु. सपा. तैत्रा ३, ७, १५, ११)।
m) पाभे. वैप १ परि. अरातये मा १, ११ टि. द्र.। n) पाभे. वैप १ परि. अरातीयन् काठ ३१, १४ टि. द्र.।
o) वैप १ द्र.। p) अर्थः व्यु. च ?। q) पाभे. वैप १ परि. अरावा ऋ १०, ३७, १२ टि. द्र.। r) नाप.
(रञ्जोजाति-विशेष-)। s) पाठः ? नेष्टश्च (तु. वैप १, ४०८ h, परि. च)।

२, १३, ६१; -रीन् अप २५,
२,३; या ११, २३.
अरि-क्षय- -याय अत्र ३, ६.
अरि-घातिन्- -ति सु २७, ४.
अरि-नाशन-> *नमन्त्रोक्तदेव-
ताक- -कम् अत्र ७, ५९.
अरि-निरोजस्व- -स्त्वम् अत्र २,
२७.
अरि-इम- (> आरिंदमिका-
°की- पा.) पाग ४, २,
११६.
अरि-मध्य- -ध्ये अप २, १, ५.
अरि-मन्दिर- -रे अप २६, २९,
१.
अरि-म्-एजय°- -यः बौश्री १७,
१८ : ७; वीगृ ३, १०, ६.
अरि-वध- -घः आज्यो ११, ४.
अरि-सेना- -नया वृद ६, ११२.
२अ-रि°- -रिः अप ३ : ३९१.
अ-रिक्त,क्ता- -क्तः आपश्री १६, ३४,
४१!; वैश्री १८, २१ : ३८१XX;
-क्तम् आपश्री १२, १३, ९;
बौश्री ७, ७ : २५१; ८, २ : ६; कागृ
२५, २१; वीगृ २, ५, ४७; मागृ
१, १०, १५; २२, ५; वागृ १४,
१३; -क्तानि बौश्री ७, १५ :
२ : २१, २० : १५; १६; आमिगृ
३, ५, ७ : १७१; वीपि १, ६ :
१२१; आपध २, १, १५; हिघ
२, १, १४; -क्तम् काश्री ५, ६,

२५; -क्त बौश्री ७, ७ : २७;
८, २ : ७; कागृ ४०, १६; मागृ
१, २१, १११; वागृ ४, २१;
-क्तेन आपश्री १, १४, ३१; बौश्री
१, ३ : ३६१; हिश्री १, ३, ५५१;
माश्री १, १४, ९१; कागृ २५,
२१; मागृ १, १०, १५; २२,
५१; वागृ १४, १३.
*अरिक्तो(क्त-उ)प(स्थ>)स्था°-
-स्था कागृ २८, ४१.
*अ-रिक्ता- -तायै आपश्री १५,
१४, १३; वैश्री १३, १६ : २३;
हिश्री २४, ६, १०; आमिगृ ३,
४, २ : ४; द्विपि २ : १७.
अ-रि(क्त>)कथा°- -कथाम् वाध
१३, ५३.
अरिगृ- १अरिगृ- ✓अर् द्र.
२अरिगृ- (> आरिगृका- °की-
पा.) पाग ४, २, ११६.
*अ-रि(प्र>)प्रा°- -प्राः आपश्री ८,
१०, १ : अत्र १०, ५; १६,
१.
अ-रिक्ति- -क्तः शाश्री १, २, १०;
कृपा १, ६७; २, २७ : ४, ४१;
उसू ७, १२; शुप्रा ४, ३८; -तम्
शुप्रा ७, ६.
अरिइम°-(> आरिइमीय°- पा.) पाग
४, २, ८०^k.
?अरिप(णि>)णी°- -ण्यौ या ९,
३९.

अ-रिषण्यत्- -ण्यन् या ८, ३१०.
१अ-रिष्ट,ष्टा°- पाग ४, २, ८०; -†ष्टः
शाश्री २, १७, ८^m; आपश्री ४,
१६, १५; ६, ७, १; माश्री ४,
२०, १; ६, १०, १२; वाश्री १,
५, ४, ४७; वैश्री २, ३ : ८;
हिश्री ३, ७, ४२; जैश्री २१ :
१९; आपमं २, २१, १९१; हिगृ
१, १२, २; कौस १०७, २; शुप्रा
४, ८५; -ष्टम् माश्री २, १, २,
३६१ⁿ; द्राश्री १२, ४, ११०;
लाश्री ४, १२, ११०; वैताश्री ४,
३१०; लुम्^p ३, ५ : १०-१२;
१४; १२:१२; *आपमं १, ६,
११; २, १०, ७; कौगृ ३, ५, ९१;
शागृ ३, १०, २१; आमिगृ २,
३, ३ : २२१; *बौगृ १, २, ४९;
५, ४; गोगृ ३, ९, २०^l; कप्र १,
४, ६; -†ष्टा आपश्री ३, २०,
३; बौश्री ३, २५ : ९; माश्री ५,
२, १५, २१; वाश्री १, १, ५, १९;
३, ७, १७; वैश्री ७, १ : ८; हिश्री
२, ८, ३३; मागृ २, १८, २;
-†ष्टाः आश्री ३, ११, ६; शाश्री
४, ११, ६; काश्री २५, ५, २८;
आपश्री ६, २७, ३; १३, १८, १;
बौश्री २, १० : ९; माश्री १,
४, ३, ९; ६, २, १७; २, ३, ७, ३;
वाश्री १, १, ४, २१; हिश्री ६,
७, ८; जैश्री ११ : २२; द्राश्री

a) विप. (सकृ-) । वस. ।

b) नाप. (नागं-विशेष-) ।

c) वैप १ द्र. । d) ऋक्तः

इति पाठः? यनि. शोधः (तु. सपा. काठ ४०, ५; वैश्री. च) । e) विप. । वस. । f) सपा. अरिक्तो°

<>अशून्यो° (संत्रा १, १, ११ च) इति पाठे. । g) नाप. (देश-विशेष-) । व्यु. ? । h) वैप १, परि.

च द्र. । i) अर्थः व्यु. च ? । j) =देश-विशेष- ? । k) अरीश्व- इति पाका. । l) विप.

(आर्ली-) स्वरूपम् ? । रिषण्यौ वा आ-रिषण्यौ वेति RNM. (तु. [अर्थतः] स्क. दु.), अ-रि° इति SBY

[१११] ? । m) पाठे. वैप २, ३खं. अजलः तैत्रा २, ५, ८, ९ टि. द्र. । n) पाठे.

वैप १ परि. अ-बद्धम् तै ३, १, १, २ टि. द्र. । o) पाठे. वैप १ विच्छिन्नम् तै १, ५, ३, २ टि. द्र. ।

p) नाप. (साम-विशेष-) ।

४,१,८; लाश्रौ २,१,७; आपर्म
२, ३, १; १५, १६; कौष्ट ३,
३, १; शांष्ट ३, ४, ४; पाष्ट १,
३, १४; आमिष्ट १, १, ३ : १;
५, १ : ४; ३, १, २ : ४; काष्ट
२७, ३; बौष्ट २, ११, २९; भाष्ट
२, ११ : १९; माष्ट १, २२, २;
२, ११, १८; हिष्ट १, ५, १; २९,
१; २, ११, १; जैष्ट १, ४ : २५;
१२ : २६; तैष्टा १२, ७; -ष्टान्
आमिष्ट २, ४, ८ : ७^५; -ष्टानि
वैताश्रौ ३, १४^५; पाष्ट १, ३, २५;
-^५ष्टाम्^५ काश्रौ ३, ८, २; माश्रौ
१, २, ५, १७; आपर्म १, ५, १७;
माष्ट १, ११, २०; -^५ष्टासः
आमिष्ट २, ७, ३ : ४; ३, १०,
३ : १२; -ष्टेन जुम् ३, ५ :
१०^०; कौस् ३१, २७^५; -^५ष्टेभिः
अप्राय ६, १; शुप्रा ३, १५०; -ष्टैः
वैष्ट ५, १ : ३; बौध १, ५, ३३^०.
अरिष्ट-क^० -कान् पाष्ट ३, ५, २५;
-कैः विध २३, २०.
अरिष्ट-गुध्र-कौशिक-विहङ्ग^५ -^५ङ्गैः
अप २१, ३, ५.
अरिष्ट-ताति- पा ४, ४, १४३;
१४४.
अरिष्ट-त्रिणिधन^५ -ने जुम् ३, ५ :
१५.
अरिष्ट-दर्शन-ने शांष्ट ५, ५, ३.
†अरिष्ट-नेमि^५ -मये कौस् ७३,

७; -मिः आपश्रौ १४, १६, १;
हिश्रौ १५, ५, १; बौष्ट २, २,
११; माष्ट २, १५, ६; अप्राय ६,
१; -मिम् सु १९, ५^५; बौष्ट २, २,
९; या १०, २८^५; -०मे सु ७, ३^५
२अरिष्ट-नेमि^५ -मिः ऋञ्च २, १०,
१७८; वृदे २, ५८; साञ १,
३३२; -मिम् शोध ११६ : ३७.
अरिष्ट-पुर- पा ६, २, १००.
अरिष्ट-मूल^५ -लम् अप १, ११, ३.
अरिष्ट-व(त>)ती- ती निस् ७,
७ : ४०.
†अरिष्ट-वीर^५ -राः आपश्रौ १७,
२२, १; हिश्रौ १२, ६, २६;
पाष्ट ३, ४, १८; आमिष्ट २, ४,
१ : १२; काष्ट ११, २; भाष्ट २,
३ : ५; हिष्ट १, २७, २.
अरिष्टा(ष्ट-अ)गार^५ -रम् वैष्ट ३,
१४ : १.
२अरिष्ट- (आरिष्टीय^५ - पा.) पाग
४, २, ८०.
अ-रिष्टि^५ -ष्टिः वृदे ४, ७२; ७, ७३;
-ष्टिम् शांष्ट ६, १, १६^५; पाष्ट
१, ३, १५^५; १८, ५; -^५ष्ट्यै
शांश्रौ ५, १५, ८; आपश्रौ ९,
१८, १५; १४, २६, ५; बौश्रौ
२८, ७ : १२; पाष्ट २, २, २१^५;
जैष्ट १, १२ : ३६.
अ-रिष्ट्या(ष्टि-आ)मय^५ -ये काश्रौ
२०, ३, १६.

अ-रिष्यत्- -^५ष्यतः कौष्ट २, २, १३;
शांष्ट २, ३, ३; -ष्यन् या ८, ३.
अरीश्च- (>आरिश्चीय-)अरिश्म- द्र.
अरीहण^० -पावा १, ३, १० (>अरी-
हणी^५-, आरीहणक^५-, अरीह-
णीय- पा. यथाक्रमम्) पाग ४,
१, ४१; २, ८०; ९०.
अ-रुच्चि- -चिः वैष्ट ३, १० : २.
अरुण, गा^५ - पाठ ३, ६०; पाग ४, २,
१२७; -०णसु ९, १; -णः शांश्रौ
१८, १, ७^५; आपश्रौ; १९, १२,
११; बौश्रौ १७, १८; ४^५; ऋञ्च
२, १०, ९१; ऋया ५, २१^५; -णम्
आपश्रौ २२, २८, १४^५; बौश्रौ;
-णस्य सु ६, ३; ७, ४; १९, १;
२; ऋप्रा १७, १४; -णा काश्रौ
७, ६, १२; आपश्रौ १५, १८, १३;
बौश्रौ ६, १० : ३; माश्रौ;
-णाः काश्रौ २२; ९, १३^०;
आपश्रौ २२, २०, १४; बौश्रौप्र
४८ : ६^५; १३^५; हिश्रौ १७, ७,
२५; अप ५२, ४, १; याशि २,
१; -णात् सु ३०, ३; -णानाम्^५
चाञ २ : १५; १५ : ३; -णायाम्
निस् १०, १० : १२; -णे अप
६३, ४, ५; -णेन सु ३, ४; ८, २;
१०, ३; २१, ४; वृदे ७, १४५;
-णेभिः ऋप्रा २, ४६; -^५णेषु
आपश्रौ १७, ५, ३; वैश्रौ १९,
५ : १८; हिश्रौ १२, २, १७.

a) नाप. (पक्ष-विशेष-) । b) पाभे. वैप १ स्योनम् तै १, १, १०, २ टि. द्र. । c) नाप. (साम-विशेष-) ।
d) नाप. (रोग-विशेष-) । e) नाप. (नदाख्य-वनस्पति-फल-) । f) द्रस. > कस. । g) साम्नोः द्रस. । h) वैप
१, परि. च द्र. । i) व्यप. (ऋषि-विशेष-, देवता-विशेष- [शोध.]) । बस. । j) कस. उप. =नक्षत्र-विशेष- ।
k) नाप. (सति का-गृह-) । l) =देश-विशेष-? । m) सप्र. अरिष्ट्यै <> सप्रजापतिकेभ्यः इति पाभे. । n) नाप. ।
तस. > मलो. कस. । o) अर्थः व्यु. च ? । अहीरण- इत्यपि क्वाचित्कः पाठः । p) नाप. (श्लेष-विशेष-) ।
q) वप्रा. । विप., नाप. (देश-विशेष-, [पाग.], मासेष्टका-विशेष- [आपश्रौ.], फाल्गुन-मास- प्रभू.), व्यप. (सर्प-विशेष-,
[बौश्रौ.], गरुड-आत्- [सु.], ऋषि-विशेष- [ऋञ्च.]) । r) सपा. अरुणः (ताव्रा २५, १५, ३ च) <> वारुणः
इति पाभे. । s) णी-> -ण्यः इति कासं. । t) बहु. <आरुण- वा आरुणि- वा ।

१आरुण^०- -गम् शाश्रौ ४, २, १४; १६, १२, २०; -णाः वाधूश्रौ ३, ३९ : १; -णे शाश्रौ ४, १६, ५; कौट ५, ८, ५^०।

आरुणक- पा ४, २, १२७.

†आरुणि^०- -णिः वाधूश्रौ २, १३ : ५; ३, ३९ : २; २०; जैगृ १, १९ : २९; शुअ २, ७३; -णिना वाधूश्रौ ३, ३९ : २३; -णेः वीश्रौ १६, २७ : २३; चाअ ६ : ४; ७ : ४^२.

अरुण-केतु^०->आरुणकेतुक^०- -कः आपश्रौ १९, १५, ११; १६; वीश्रौ १९, १० : १; हिश्रौ २३, ३, ३१; ३, ३५; -कम् आमिगृ १, २, १ : १३^१.

अरुण-ता(अ->)त्रा^०- -त्राम् विध ६४, ९^५.

अरुण-दूर्वा- -र्वाः काश्रौ २५, १२, २०; आपश्रौ १४, २४, १२.

अरुण-पिपीलिका- -कानाम् कौम् ११६, ३^१.

†अरुण-पिशङ्ग^०- -ङ्गः आपश्रौ १४, ३, ७ : २०, २, ९; वैश्रौ १७, ३ : ९; हिश्रौ १४, १, २१; -ङ्गम् आपश्रौ १४, ३, ३; वीश्रौ १७, १ : १; ३ : ९; ५ :

४; वैश्रौ १७, ३ : ३; हिश्रौ ९, ७, २४.

अरुण-पुष्प^०- -ष्पाणि काश्रौ २५, १२, १९.

अरुण-बभ्रु^०- -भ्रुः वाश्रौ ३, ४, ३, १७^१.

†अरुण-रजस^०- -जाः आपश्रौ १९, १२, ११; वीश्रौ १९, ३ : ३०; हिश्रौ २३, २, २२.

अरुणा(ण-आ)त्रेय^०- -याः वीश्रौ प्र २७ : ५.

अरुणा(णा-अ)भाव^०- -वे काश्रौ ७, ६, १२.

अरुणा(ण-अ)श्व^०- -श्वः वीश्रौ १९, १० : ३५^१.

१अरु(णा->)णी^०- -ण्यः अत्र ४८, ९४^१; वृदे ४, १४१; निघ १, १५^१.

२अरुणी^०- -गोभिः वैश्रौ १८, १४ : २४^१.

?अरुःसाहस्य अत्र ४८, १२७^१.

अ-रु(द->)द्धा- -द्वा जैगृ १, २१ : ३५^१।

अरुन्तुद- अरु- द.

अ-रुन्ध(त->)ती^०- -०ति जैगृ १, २१ : ३५^१; -†ती वीगृ १, ५, १३; मागृ २, १५, १; वागृ १३, २; वैगृ ३, ४ : ११; -तीम् लाश्रौ

३, ३, ६; आपमं १, ९, ७^१; आगृ १, ७, २२^१; आमिगृ १, ५, ४ : ४६^१; आपगृ ६, १२^१; कागृ २५, ४५; वीगृ १, ५, ११; १३^१;

भागृ १, १९ : ४; ८^१; १०; मागृ १, १४, ९; वागृ १५, २१;

वैगृ ३, ५ : ९; हिगृ १, २२, १४; गोगृ २, ३, १०; †जैगृ १, २१ : ३३; ३५; -त्यै आमिगृ १, २, २ : १७; वीगृ ३, ९, ३; भागृ ३, १० : २^१; हिगृ २, १९, ४.

अरुन्वनी-समा(म-आ)चा (र >) रा^०- -रा शंघ ८१.

अरुन्वत्यु(ती-उ)पस्थान- -नात् वीगृ १, ५, १४; ७, ९.

अरुन्मुख^०- -खान् शाश्रौ १४, ५०, १.

अ-रुवत्- -वति दाश्रौ १३, १, १६; लाश्रौ ५, १, १४.

†अरुव^०- -वः आपश्रौ १६, २०, १४; १७, १८, १; हिश्रौ ११, ६, ६१; अप ४८, ९३; साअ २, ८१८; निघ १, १४; ऋप्रा २, ४६; -पम् आश्रौ ६, ४, १०; वीश्रौ ९, ७ : २; १०, ३४ : ९; १५, २४ : १; वैश्रौ; निघ ३, ७; -पस्य आश्रौ ८, ६, २३; -पासः ऋप्रा १, ९८.

a) विप. (आस्तरण-), नाप. (अग्न्यन्वाधान-), व्यप. (श्रोत्रिय-विशेष-). तेनरह्नीये तस्येदमीये तस्यापरत्यये चार्थे अण् प्र.।

b) °णेः इति पाठः! यानि. शोचः (तु. शाश्रौ.)। c) वैप १, परि. च द्र.। d) व्यप. (ऋषि-द्वय- [तु. तैआ १, २४, ४])। e) नाप. ([आरुणकेतुकचयनसंबन्धात्-] कारड- वा अध्याय- वा)। तत्रभवतीयः ठम् प्र. कादेशश्च (पा ४, ३, ६९; ७, ३, ५१)। f) सप्र. वैश्वसृजम् आरुणकेतुकम् <> वैश्वसृजारुगाः इति पाभे.। g) विप.। कस.। h) °किरणप्रस्ताम् इति जीसं. i) विप. (अर्जुन- [तृण-विशेष-])। बस.। j) नाप. (वैशाख-मास- [तु. सा तैआ ३, १०, १, ४])। बस.। k) व्यप. (ऋषि-विशेष-).। कस.। l) षम.। पूप. नाप. ([अरुणवर्णा-] सोमकथणी-).। m) विप. (अग्नि- [तु. तैआ १, १२, ४])। बस.। n) नाप. (उषसां गो- [तु. वैप १, ४१२ j ४१३ & च])। o) वैप १, ४१३ d द्र.। p) सप्र. अरुद्धा <> रुद्धा इति पाभे.। q) विप.। तृस.> बस.। r) व्यप. (रक्षो-विशेष-).। व्यु. ?। सपा. वैप २, अरुर्मुं इति, ऐआ ७, २८

अरुर्मघ-> -घान् इति, आनर्तायस्तु व्यप. अरुन् मखान् इतीव द्वे पदे इति ?।

†अरुषी^a- -वी अप ४८, ११०;
निघ १, ८; -वी: या ५, १;
१२, ७०.
†अरुषति^b निघ २, १४१.
‡अरुस्^c- पाउ २, ११७; पा ५, ४,
५१.
अरु-तुद- पा ३, २, ३५.
अरु-चित्- -चित् आपथ्रौ १६,
९, २१.
अरुष-कर- पा ३, २, २१.
२अरुस्^d- (> आरुसीय^d-पा.) पाग
४, २, ८०.
अ-रूप^e- -पम् अप ७२, ६, ४; या
१४, ३.
अरूप-त्व- -त्वात् मीस् २, २,
१३.
अरुष- पाउ ४, ७३.
अरे^f काथ्रौ १३, ३, २६१; शुप्रा
२, १६१; पाग १, ४, ५७.
अ-रेका(क-अ)र्थ- -र्थे मीस् ३, ५,
१२.
†अ-रेडत्^g- -डता^g आपथ्रौ ४, १२,
६; हिथ्रौ ६, ३, १४^h.
†अ-रेणुⁱ- -णव: वीथ्रौ १५, २: ६;
शुप्रा ४, ७८; -णु या ६, १४.
†अ-रेपस्^j- -पस: आपथ्रौ २१, ९,
१५; वाथ्रौ ३, २, २, १३; हिथ्रौ
१६, ४, १३; -पसा या १२,
३०; -पसौ कौस् १०८, २; -पा:
वाध्रुथ्रौ ४, ११७: २; वीथ ३,
७, ५.
‡अ-रेफ^k- -फे शुप्रा ४, २.

अरेफ-ता- -ता भाशि ८६.
२अ-रेफ^l- -फस्य ऋप्रा ५, ७.
अ-रेफवत्- -वत: ऋप्रा ४, ४५.
अ-रेफ-संहित- -ते ऋप्रा ५, ३१.
अ-रेफिन्- -फी ऋप्रा ४, २४; ३१.
अरेफि-क^m- -का: शैशि २७.
अ-रोकⁿ- > °दत्ⁿ-, °दन्तⁿ- पा
५, ४, १४४.
१? अ-रोग^o- -गे गौध २३, २०.
२अ-रोग, गा^p- -गा: आपृ ३, १९;
-गा: अप ७०^r, ७, ३; २४; ८,
४; आज्यो २, १०; -गाम् आपृ
१, ५, ३; आपृ ३, १८; अप ४,
२, ८.
आरोग्य- -ग्यम् आमिपृ २, ३,
३: २८; वैपृ १, ७: ३; कप्र १,
९, १३; २, ४, १०; अप ३१, १,
४; २, ५; ५९, १, ४; ६२, ३ ६;
४, ४; ७०^s, १३, ३; शंघ ११६:
२२; १९३; आपथ १, १४, २९;
विध ७८, १; ३०; ९२, १६;
हिथ १, ४, ५८; वृडे ७, ४४;
आज्यां ६, २.
आरोग्य-द- -दम् अप ७, १,
३.
आरोग्य-वत्- -वान् अप १२,
१, ९.
अ-रोगिन्- -गी अप ४२, १, ५.
अ-रोचक- -क: कौस् ४, १७.
अ-रोचमान- पागवा ६, २, १६०.
अ-रोमश, शा^t- -शम् भाशि ५, ४;
-शा काशु ७, १२.

अ-रोष^u- -व: आपथ १, २३, ६; हिथ
१, ६, १४.
अ-रोहित- -तम् वीथ्रौ २०, १६:
२२; २१, ११: १; २२, १८:
१; २३, १६: १.
√अर्क^v पाधा. चुरा. पर. स्तवने; तपने
इत्येके.
अर्क- प्रमृ. √अर्च^w द.
अर्कलूष^x- (> आर्कलूष-, आर्कलूषा-
यनि^y- पा.) पाग ४, १, १०४;
२, ८०^z.
अर्गल^{aa}- पाउभो २, ३, ९५; पाग ५,
१, ४.
अर्गलीय-, अर्गल्य- पा ५, १,
४.
√अर्घ^{ab} [= √अर्ह^{ab}] > अर्घ^{ab}- पाग ५,
१, ६६; ७, ३, ५३; -र्घ:
शांशु २, १५, २; पापृ १, ३,
२९; हिपृ १, १२, ८^{ac}; -र्घम्
पापृ १, ३, ५; १३; वापृ ११,
१४; अप १४, १, १४; १५, १,
४; १६, १, १३; ३०^{ad}, २, ५;
३६, ८, ३.
अर्घ-चन्दन-धूपा(प-आ)दि- -दि
अप २१, १, ४.
अर्घ-धूपन^{ae}- -ने अप ३६,
११, १.
अर्घ-पुण्य-धूपा(प-आ)लेपना-
दि-भक्ष्य-भोज्य^{af}- -ज्यानि विध
७३, २३.
अर्घा(र्घ-अ)पचय^{ag}- -येन गौध
१०, ३४.

- a) वैप १, परि. च द्र. । b) पृ ३५३ q द्र. । c) अर्थ: व्यु. च ? । अरुष- इति पागम. ।
d) = देश-विशेष- ? । e) विप. । बस. । f) अर्थ: । वैप १, ४१० d द्र. । g) पाभे. वैप १ परि. अरेडता टि. द्र. ।
h) ०^h इति पाठ: ? यनि. शोध: (तु. आपथ्रौ.) । i) तस. । j) स्वार्थे क: प्र. । k) = निर्दिष्टि- । बस. ।
l) तस. । पाठ: ? रोगे इति Bühler । m) अर्थ: व्यु. च ? । n) अर्क-, लूष- इति पाका. । o) नाप. ।
व्यु. ? । < √ अर् इति पाउभो. । p) भाप., नाप. । q) सप्र. अर्घ: < > अर्घ्यम् इति पाभे. । r) द्रस. ।
s) षस. पूष. = मूल्य- ।

अर्घा(घे-अ)है- -र्हाः वाध ११, १^५.
 अर्घ्य- पा ५, १, ६६; ४, २५;
 -र्घ्यः बौध्नी १७, ४४ : १७;
 कौगृ १, ८, ११; आमिगृ २, ६,
 ६ : ३१; बौगृ १, २, ३३; ५३;
 -र्घ्यम् शांश्री ४, २१, ४^७; २५;
 बौध्नी २१, १३ : ७; वैश्री १,
 ४ : ९; १२, २२ : ६; द्राश्री १,
 २, १; लाश्री १, २, २; आगृ १,
 २४, ७; १३; ४, ७, १३^१; वैगृ
 ६६ : ५^३; आमिगृ २, ४, १० :
 २०; ६, ५ : २२; ३, १ : २५^३;
 २६; कागृ २४, ४; ११; बौगृ
 १, २, १; २, ९, १८; भागृ २,
 २३ : १^३; २४ : १; मागृ १, ९,
 ४^१; १२; गौपि २, ३, २३; वागृ
 ११, ३; हिगृ १, १२, १४; १३,
 २^७; वैगृ २, १५ : १५; १६ :
 ४; ४, १२ : ८; गोगृ २, ३,
 १६; ३, ४, ३३^१; ४, १०, १२;
 जैगृ १, १९ : ३५; द्रागृ १, ४,
 ७; ३, १, ३०; ४, ४, १५; कप्र
 १, २, ७; ९ : ३, १०, १८;
 १९; कौम् ९०, १७^७; अप
 ४४, ३, २^१; विध ६५, ३;
 ७३, १२; गौध्र ५, ३३; -र्घ्याः
 शांश्री ४, २१, १; आगृ ४,
 ७, १४^१; पागृ १, ३, १; बौगृ
 १, २, ६५; द्रागृ ४, ४, २४;
 -र्घ्याणाम् कौगृ ३, १०, ३१;
 शांश्री १, १५, १; -र्घ्ये कप्र १, ४,
 ८; ३, ५, १५; -र्घ्येण भागृ २,
 २३ : ४; -र्घ्येषु भागृ २,
 २५ : ५.

अर्घ्य-दान- -नम् मागृ २,
 १४, ३१.

अर्घ्यदान-वत् कप्र १,
 ४, ७.

अर्घ्य-द्रव्य- -व्याणि बौगृ
 १, २, ४; १४.

अर्घ्य-पातित- -तम् आगृ
 ४, ७, १६^१.

अर्घ्य-पात्र- -त्राणि शांश्री ५,
 ९, ५.

अर्घ्य-पाद्या(घ-आ)दि-
 -दिभिः आमिगृ २, ४, ६ :
 १५.

अर्घ्य-स्नान-पाद्या(घ-आ)-
 चमनीयो(य-उ)दक^०- -कानि
 हिपि १७ : १८.

अर्घ्या(र्घ्य-अ)है- -र्हाः^५
 कागृ २४, १; वागृ ११, १; मागृ
 १, ९, १; गोगृ ४, १०, २३; जैगृ
 १, १९ : ४६.

✓अर्चा=✓ऋच्^१, पाधा. चुरा. पर.
 पूजायाम्, अर्चति अप ४८, ९^२; वृदे
 ३, ५१; ७, २५; १२३;
 १२४; १४६; ८, १५; निघ ३,
 १४^१; या ५, ४; अर्चतः वृदे
 ७, ३५; अर्चन्ति शांश्री १८,
 १५, ५^१; अप १, ३७, ३^१;
 अर्शा ७, ३; वृदे १, ६४;
 ६५; ३, ४८; साअ १, ४४५^१;
 या ५, ४^{१०}; ५७; १३, ११^३;
 तैप्रा १२, ७^१; उनिस् ५ :
 २१^१; ऋर्चामि आश्री ४, १,
 २३; ६, ३; शांश्री ५, ९, ७;
 बौध्नी ६, १४ : १४; निस् १,
 १ : २१; अप १, ३८, १; ३;

अर्शा ८, १; ३; अर्चन् आश्री ६,
 १२, २^१; अर्चान् तैप्रा ९, २३^१;
 अर्च ऋप्रा ७, ३४^१; ऋर्चत
 आश्री ६, २, ९; वृताश्री २९,
 १९^१; कौस्^१ ५९, १५; १९;
 अप ३७, १०, १^१; अर्शा^१
 १८, १; १९, ५; साअ १,
 ३६२; अअ ७, ८२^१; अप
 २ : ८३^१; या ३, ९; अर्चाम मागृ
 २, १७, १^१; अर्चन् वृदे ८, ५४.
 अर्चयति आमिगृ २, ५, ११ :
 ११; बौगृ १, ११, ५; वैगृ ३,
 १३ : ६; २१ : १५; ४, १० :
 ४; २०; ५, १५ : ३; वैध ३,
 ९, ५; अर्चयन्ति आश्री १४, ८;
 आर्चयत् वृदे ४, १; अर्चयेत्
 आश्री २, ६, १६; आमिगृ २,
 ३, ३ : ९; ११; ५, ६ : ५; वैगृ
 ४, १२ : १३; १३ : १२; अप
 ४, २, १५; १२, १, ५; १९^१,
 २, २; ४, ४; ७०^१, ३, ५; ७, १;
 विध ४९, १; ६७, २९.

अर्चयिष्यामः पागृ १, ३, ४.

अर्क^५- पाउ ३, ४०; पागृ ४, १,
 ११०; २, ८०; ९०; -०र्क
 वैश्री १९, ६ : १०५^७; -र्कः
 शांश्री १७, १६, १^१; ऋर्चाश्री
 ५, १२, १; १४, ३१, ८^१;
 २१, २०, ७^१; ऋर्चाश्री २,
 १७ : ३९; २९, ६ : ७^७; ९^१;
 भाश्री ५, ९, ६^१; माश्री १, ५,
 ५, १८^१; वाधूश्री ४, ११५ :
 १५^१; वाश्री १, ४, ४, २०^१;
 ऋर्चाश्री १, १३ : ६; २१, १७ :
 ५; हिश्री ३, ४, १२^१; द्राश्री ९,

a) सपा. अर्घां<>अर्घ्यां इति पाभे. । b) पाभे. पृ ३५८ वृ. । c) द्रस.>मलो. कस. । d) पावा
 ७, ३, ५९ परामृष्टः द्र. । e) सकृत् ऋच्यं इति मूको. । f) पाभे. वैप १ परि. अर्चत ऋ ४, ५८, १० टि. द्र. ।
 g) वैप १, परि. च द्र. । h) सप्र. अर्क<>अर्कः इति पाभे. । i) पाभे. वैप १ स्वर्काः शी ७, २५, १ टि. द्र. ।

३, १२; १३; लाश्रौ ३, ६, ३२;
३३; क्षुस् ३, १: १४; १०:
४०; ११: २३; १२: २०;
निसू ७, ४: ४९; ८, ४: ८;
९: ४०; १०, २: ३४; कौगृ
२, ६, ९; भागृ २, २१: ७;
८; अप्राय ६, ३; अप २६,
५, ६; ऋ८, ८८; १०४; ११५;
५१, १, ३; ऋनिघ २, ७; २०; ४,
२; या ५, ४^१; १४, २; वेज्यो
७; -कर्म ऋश्रौ २, १६, ११;
३, ७, १२; शाश्रौ १८, १५, ५; १;
वाश्रौ २, २, ३, १४; निसू ८, ९:
३४; ९, २: ३०; ५: ३१; १०,
४: ९; आमिगृ २, ४, ११:
१२; ५, ३: २१; जैगृ १, १९:
२०; कौसू ३८, ७; ७१, ५; ७२,
१३; बौगृ ३, ७, १६; कप्र २,
१, १०; अप ४६, ६, ४; शंघ
११६: ४५; विघ २८, ५१; वैघ
२, १०, २; अग्र १२, २; उस्
३, १; ऋया ५, ४; १२, १८;
-कस्य हिश्रौ ६, ६: १७^१; सु
३, ३; अप ६४, ४, ५; माशि ४,
२; -का: निसू ८, ४: ७; ५:
३१; ९: ३२; ९, १: ४; या
१४, १५; -काणाम् निसू ९,
४: ३५; -कान् निसू १०, २:
३१; ४: ९; -के आमिगृ २,
५, ८: १०; अप ६४, ५, ७; विघ
९९, ९; -केण भागृ ३, १४:
१९; -ऋके: आश्रौ २, ८, १४;
शाश्रौ ९, २४, ८; १८, ५, १;

आपश्रौ १७, २१, ७; बौश्रौ ३,
२: १५; वैश्रौ १, २०: ८;
१९, ५: ९; वैताश्रौ ३१, २५;
या ६, २३; -कौ निसू ८, ५:
३२.

आर्क^b-कर्म कौसू ४०, १६;
-काणि वैश्रौ १३, ७: १७^c.

आर्कायण^d- पा ४, १, ११०;
-णा: बौश्रौ ३: ११; ४: २.

आर्कायणि^e- पा ४, २, ८०.

आर्क-कारिन्-री क्षुस् ३, १०:
३७.

आर्क-काल^f-लौ विघ २२, ८८.

आर्क-काश्मर्थ-निम्ब^g-म्बानाम्
अप ७०, ४, ६.

आर्क-काष्ठ-छेन काश्रौ १८,
१, १.

आर्क-क्षीर-रम् आपश्रौ १५,
१८, १०; बौश्रौ ९, १७: २५;
माश्रौ ११, १८, ११; -रे: बौश्रौ
९, १७: २५.

आर्कक्षीरा (र-अर्क>) का-
क्तया अप ३५, १, १२.

आर्क-चन्द्र^h-न्द्रयो: अप ६४,
५, ७.

आर्क-छाया-या अप ६७, ६, ४.

आर्क-दुग्धा (ग्ध-आ) शिन्ⁱ-
-शिन: वैघ १, ८, १^h.

आर्क-देवता-> ल्य- ल्यम्
अग्र ६, ७२.

आर्क-निशाकर^j-रौ अप ६४,
६, ५.

आर्क-पत्र-अग्र वैश्रौ १९, ६:

४६; -त्रै: वैगृ ४, ९: ७.

आर्क-पर्ण-र्णम् आपश्रौ १७,
११, ५; १९, १२, २५^k; बौ

१०, ४७: १४; ४८: १६; १९,
४: २७; माश्रौ ६, २, ४, ५;

वाश्रौ २, २, ३, ८; वैश्रौ १९, ६:
३३; हिश्रौ १२, ३, ६; २३, २,
३६^l; -र्णस्य बौश्रौ १०, ४८:

२; १९, ४: २५; -र्णानि हिपि
१८: १; -र्णेन काश्रौ १८, १,

१; आपश्रौ १७, ११, ३; १९,
१२, २४; बौश्रौ १९, ४: २३;

२३, ७: २४; २४, ८: १३;
माश्रौ ६, २, ४, ३; वाश्रौ २, २,

३, ३; हिश्रौ १२, ३, ४; २३, २,
३५; -र्णेषु आमिगृ २, ५, ८:

३२; वैगृ २, ७, २३.

आर्क-पलाश-शयो: काश्रौ ४,
११, ८.

आर्क-पलाश-खदिरा (र-अ) पा-
मार्ग (र्ग-अ) श्रौ (व्य-श्रौ) दुम्बर-

शमी-द्वया-कुश^m-शान् वैगृ
४, १४: १; २.

आर्क-पुष्पⁿ-प्पम् निसू ७, ७:
२१.

आर्क-पृष्ठ-ष्ठान् निसू ४, ७: १^k;
आर्क-मय-याणि आपश्रौ १५,

५, ११^l; -यानि हिश्रौ २४, २,
५^l; -येण आपश्रौ १६, ३, ७;

वाश्रौ २, १, १, २५; वैश्रौ १८,
१: ४६; हिश्रौ ११, १, ३४;

१३, ३, ३४; -येन माश्रौ ६, १,
१, ३१.

a) उरुगोऽर्कस्य इति पाठः? उरुगस्य इति शोधः (तु. आपश्रौ ६, १९, १; मै १, ५, ४ उरुकस्य इति पाठे. च)। b) नाप. (अर्क-मणि-). तस्यविकारीयः अण् प्र.। c) अर्काणि इति पाठः? यनि. शोधः (तु. सप्र. अर्कमयाणि, णि इति पाठे.)। d) व्यप. (ऋषि-विशेष-). e) =देश-विशेष-?। f) द्वस.। g) नाप. (वानप्रस्थ-विशेष-).। उस.। h) C. 'दग्धा' इति। i) णी इति पाठः? यनि. शोधः (तु. पूर्व स्थलम्, सप्र. बौश्रौ १०, ४८: १६, C. च)। j) नाप. (साम-विशेष-). व्यु. ?। k) नाप.। ष्टानि इति संस्कर्तुः टि.। l) पाठे. C टि. द.।

अर्कमयी- -यी अप ३०,४,
३; -यीम् आपश्रौ १६, १,७;
हिश्रौ ११,१,११.

अर्क-वन् बोध ४,८,२.

†अर्क-वत्- -वते आपश्रौ २१,
२१,१६; बोश्रौ १३, ११ : ७;
१०; माश्रौ ५, १, १०, ३०;
वाश्रौ ३, २,५,१९; हिश्रौ १६,
७,१२; -वान् जैगृ १, १९ :
२०.

अर्कवती- -तीभ्याम्
बोश्रौ २९,६ : ८.

आर्कवत^२- -तस्य माश्रौ ५,
१,१०,२९^०.

अर्क-वर्ग^०- -र्गेन विध १,४२.

अर्क-वार^१- -रे आमिगृ २, ७,
६ : २१; -रेपु आमिगृ २, ४,
११ : २३.

अर्क-समाधि^०- -धिः निम् ४,
७ : ८.

अर्क-समिध^०- -मिधम् आमिगृ
२,५,१ : १५; जैगृ २,९ : २१;
-मिधौ बोश्रौ २९,६ : ८.

अर्क-स्तुभ^१- -स्तुभः शाश्रौ ८,
२३,११.

१अर्का (क-अ) मि^०- -मौ अप
३५,१,१२.

२अर्का (क-अ) मि^०- -मिः वैध
१,७,६.

अर्का (क-आभा >) भ^०- -भः अप
५२,९,२.

अर्का (क-अ) धमेव^१-वत्- -वते
बोश्रौ १३,१२ : ८.

अ (क >) कर्क-सधस्थ^०- -स्था
वाधूश्रौ ३,५४ : १.

अर्का (क-आ) हुति^०- -तिभिः
बोश्रौ २२,३ : १९; २०; -तीः
आपश्रौ ११, २०, १०; १७,
२०, १६; वैश्रौ १९, ६ : १३४;
हिश्रौ १२, ६, २३.

†अर्किन्- -किणः या ५,
४०.

आर्किणी- -णी शाश्रौ १८,
११, २१.

अर्कीय-पा ४, २, ९०.

अर्के (क-इ) न्दु-प्रभव^१- -वाः
अप ६८, १, ७.

अर्के (क-इ) न्धन^०- -नात् अप
३६, २२, १.

अर्केन्धना (न-अ) भि^०- भिम्
अप ३५, १, ७.

अर्केन्धना (न-आ) हुत^१- -ते
अप ६५, ३, ३.

अर्के (क-ए) धः-समिध-अभि^१-
-मौ अप ३५, १, ११.

†अर्क्य^१- -क्यम् आपश्रौ २२,
२, २; हिश्रौ १७, १, २०; -क्यैः
वाश्रौ २, २, ३, १४.

अर्च^क- -चैम् आमिगृ २, ५, ३ :
२१; बोगृ ३, ७, १६; -र्चाय
या ७, २०; १४, ३३.

†अर्चगोतम- -मः अत्र २०, ६३.

अर्चत्- -चैन् ऋअ २, १०, १४९^म;
वृदे २, ४७^म; या १०, ३२^म;

१२, ३४; -चन्तः आश्रौ ४,
१३, ७; शाश्रौ २, २, १८; ३,
१०, ४; ६, ४, १; ९, २२, ५;
२७, २; १०, ९, १७; १४, ५२,
११; ऋअ २, ५, १३; वृदे
२, ३२; -चन्तम् शाश्रौ ८,
१६, ११.

अर्चति- > ण्ति-कर्मन्^०- -र्माणः
निघ ३, १४; या ३, १९.

१अर्चन^१- -नम् वैगृ ३, २१ : १४;
२२ : ६; ५, १३ : १५; ६,
२० : ७.

अर्चनी- -नी या १, ८.

अर्चन-बलि^०- -लिभ्याम् वैगृ
३, २१ : ११; १२.

अर्चन-मन्त्र^०- -न्त्रः बोगृ ३,
११, ३.

अर्चनीय- -यः अप २४, ३, ५;
-यम् या ७, २६; -यैः या ६,
२३.

२*अर्चन^१- > अर्चना (न-अ) नस्^१-
-नसः वृदे ५, ५२; -नसम् वृदे
५ ५१; ७६; साअ १, ६३;
-नाः ऋअ २, ५, ६३; ८,
४२; अप्रा ३, ४, ११; वृदे ५,
५३.

अर्चयत्- -यन् अप ४, १, २४.

अर्चयित्वा आमिगृ २, ४, ६ : १५XX.

अर्चा^१- -र्चा मागृ २, १५, ६; वैगृ

a) नाप. (अनुवाक-विशेष- [तु. तै २, ७, २; ३]) । मतुबर्थे अण् प्र. (पा ५, २, ६१) । b) वैतु.
संस्कर्ता क्वाचित्कं मूको. अनु अर्क इति (तु. टि. ?अनीकवत-) पुष्पंश्चिन्त्यः । c) विप. । बस. । d) =आदि-
त्य-वार- । e) षस. । f) वैप १, परि. च द्र. । g) व्यप. ? । द्रस. पूप. दीर्घः ? (तु. आपश्रौ
६, २१, १) । h) विप. । द्रस. > बस. । i) विप. । तृस. । j) षस. > कस. > षस. ।
k) विप. । कर्मणि घञि कुत्वाभावः उस्. (पा ७, ३, ५२) । l) वैतु. B.N. अर्च्छाय इति । m) व्यप. (ऋषि-
विशेष- [हिरण्यस्तूप-]) । n) भावाद्यर्थे ह्युद् प्र. । o) द्रस. । p) भाप., नाप. (देव-प्रतिमा-) । स्त्री. भावे
कर्मणि वा अङ् प्र. ।

४, १० : १; -चाभिः अप ७०^३,
४, २; -चायाम् पा २, ३, ४३.
आर्च- पा ५, २, १०१.
अर्चा-पीठ- ठे वैगृ ४, ११ :
१२.
अर्चि^१- -चैयः अप्राय २, ७^१;
-र्चिभिः अप २४, ४, ४; वृदे १,
९४; शुभा ३, ७८^१; -र्चिभ्यः
वृदे ५, ९९.
अर्चित, ता- पाग ५, २, ८८; -तः
वौगृ १, १, २४; अप २४, ३, ५;
६९, ८, ५; -तम् अप २१, ६, १;
-ताः आमिगृ २, ३, ३ : २२;
-तानाम् चात्र १६ : ७; -ताम्
अप ४, ३, १; -ते गौध २, ३०.
अर्चित-द्युति^२- -तिः अप २४,
३, ५.
अर्चित-भिक्षा-दान^३- -नेन विध
५९, १५.
अर्चितिन्- पा ५, २, ८८.
अर्चिवा अशां १५, ३.
अर्चिव्यन्- -प्यन् वाध १४, १३;
शंघ १००; विध ५७, १३.
अर्चिस्^४- पाठ २, १०८; -र्चिः
आश्रौ ४, १४, २; काश्रौ;
आपश्रौ ७, २७, ४^५; निघ
१, १७; या १४, ९९; -र्चिपः
माश्रौ ४, १, २२^१; अप ५२, २,
३; या ७, २३; १४, ९; -र्चिषा
आश्रौ २, १२, ४^६; ३, १२, २७;
शाश्रौ; -र्चिषि काश्रौ २६, ४,

६९; वौश्रौ; या ३, १७९;
-र्चिषि आश्रौ २, १२, २;
आपश्रौ; -र्चिषि शाश्रौ ११, १३,
२६.
अर्चिः-प्रत्यवाय^७- -ये काश्रौ ४,
१५, १८.
अर्चिष्-पाणि^८- -णिः अप ६७,
४, ५.
अर्चिष्-मत्- -मति अप ६५, १,
२; -मन्तः अप ५२, २, २;
-मन्तम् शुश्र १, १; -मन्ति
अप ५२, ११, २; -मान् अप
२४, ३, ५; ५२, ५, २; ५३, ६, १.
अर्च-अर्चनानस्- ✓ अर्च द.
अर्चनानस्^९- > अर्चनानस्- -०स
आश्रौ १२, १४, १; आपश्रौ २४,
८, ११-१३; वौश्रौप्र २७ : ११;
२८ : १; २९ : १; ३० : ४; हिश्रौ
२१, ३, १०; ११; वैध ४, ५, १-
५; -सः शाश्रौ १६, ११, ८.
अर्चनानस-वत् आपश्रौ २४, ८, ११-
१३; वौश्रौप्र २७ : ११ : २८ :
२, २९ : २; ३० : ४; हिश्रौ २१,
३, ११^२; वैध ४, ५, १-५.
अर्चयत्- प्रसृ. ✓ अर्च द.
अर्च्य- ✓ ऋच द.
✓ अर्ज (वधा.) भ्वा. पर. अर्जने,
चुरा. उभ. प्रतियत्ने, अर्जयन्ति
विध ५४, २८; गोय १, ८, २७;
अर्जयेत् आपश्रौ १४, २३, ११.
? अर्जिमलम्बलः^{१०} हिगृ २, ७, २.

अर्जुन^१- पाठ ३, ५८; ५९; पाग ४, १,
९६; ११०; २, ८०^२; फि १६;
-र्जुन आमिगृ ३, ८, ३ : १;
वौषि १, १५ : ७३; हिगृ १६ :
५; वृदे ६, १३; -र्जुनः आपमं
२, १६, ८; भागृ २, ७ : २०; हिगृ
२, ७, २; शुभा ४, ८५; -र्जुनम्
निघ ३, ७; या २, २१७;
-नानि शाश्रौ १३, ६, ३; काश्रौ
२५, १२, १९; माश्रौ ३, ६, ४^३;
हिश्रौ १५, ६, १५; अप्राय ६, ४.
र्जुनी^४- -नी अप ४८,
११०; निघ १, ८; -नीः^५
आमिगृ ३, ८, २ : ३८; वौषि १,
१५ : ४६.
अर्जुनायन- पा ४, १, ११०;
पाग ४, २, ५३.
अर्जुनायनक^६- पा ४, २,
५३.
अर्जुनि- पा ४, १, ९६; २,
८०^६.
अर्जुनक- पा ४, ३, ९८.
अर्जुन-काण्ड^७- -ण्डस्य अत्र २, ९.
अर्जुन-पा(क>)की^८- पा. पाग ४,
३, १६७.
अर्जुन-पुरुष^९- पाग २, ४, ११.
अर्जुन-वृक्ष- (>°क्षीय-पा.) पाग
४, २, ९०.
अर्जुनश^{१०}- पा ४, २, ८०.
अर्जुन-शिरीष^{११}- पाग २, ४, ११.
अर्जुन-स्तम्ब^{१२}- -म्बम् आमिगृ ३, ८,

a) वैप १, परि. च द्र. । b) विप. । बस. । c) कस. > षस. । d) पाभे. वैप १, १३९४
j टि. द्र. । e) पाभे. वैप १ परि. अर्चिषि ऋ ९, ६७, २३ टि. द्र. । f) षस. । g) व्यञ्ज (ऋषि-विशेष-)
व्यु. ? । h) पाठः ? । °मन्, शम्बलः इति शब्दसूच्यां संस्कृता । सप्र. आपमं २, १६, २ आर्जिन्, श्यामः, शम्बलः इति
पाभे., पागृ १, १६, २४ विभे. च । i) विप. ([स्वैतवर्णवत्-] सारभेय-), नाप. (वृक्ष-विशेष-, तृण-विशेष-),
व्यप. (ऋषि-विशेष-, कुन्ती-पुत्र-, इन्द्र-) । शिष्टं वैप १, परि. च द्र. । j) पाभे. वैप १ इत्येनीः शौ १८, ४, ३४ टि.
द्र. । k) = देश-विशेष- ? । l) = ओषधि-विशेष- । स्त्री. ङीष् प्र. (पा ४, १, ६४) । m)

समाहारे द्रस. ।

१ : ९; ३ : २; बौपि १, १४ :
९; १५ : ७४.

अर्जुनाव^b- (>?अर्जुनावक- पा.)

पाग ४, २, १२७.

अर्ण^b- पाग ४, २, ८०^०; -र्णम् बौश्री
१०, २१ : १.

अर्णम^d- पा ४, २, ८०.

*अर्णव^b-वः निम् १, ५:६\$^०; आपमं
१, १०, ७^१; भाग्य ३, ९ : ३;
या १४, ११\$; -वम् आपश्रौ
१७, २१, ७; हिश्रौ १२, ६, २६;
-वाः अप ४८, ७६; -वान्
भाग्य ३, ९ : ३; -वान् या १०,
९७; -वाय आपश्रौ १७, २,
६; -वे आश्रौ १०, ९, ५;
शांश्रौ १६, ७, १; आपश्रौ १६,
२८, ४; वैश्रौ १८, २० : २; हिश्रौ
११, ८, १; निम् १०, १० : २२^६;
अअ १२, १; अप ३ : ५३;
शुप्रा ४, ७.

अर्णस^b- पाउ ४, १९७; -र्णः निम्
१, ५ : २०^६; अप ४८, ७५^३†;
निघ १, १२†; या ११, २७†;
ऋप्रा १७, ५^६; -र्णसः पावा ५,
२, १०९; -र्णसि या ६,
२०†.

अर्णव- पावा ५, २, १०९.

अर्णस-वत्-वतः या १०, ९.

✓*अर्त्^१> अर्त्(न >)नी^१- न्वौ
या ९, ३९.

अर्ति^१- -तिम् माग्य १, २२, २१^१.

अर्तित्वा, अर्तिव्यमाण- ✓ऋत्
द्र.

✓अर्थ^३ पाधा.चुरा. आत्म. उपयाच्वा-
याम्, अर्थयति वृदे १, ९.

अर्थ^b- पाउ २, ४; -र्थः आश्रौ ८,
१२, १३; शांश्रौ; कौस् ११९,
४^१; या १, १८७; ४, १; ६;
६, २४; २८; ३१; ७, २०;
८, १९; १३, ५; १४, ३३;
-र्थम् शांश्रौ ५, १९, २; हिश्रौ;
अअमू ३^०; या १, १५; १८७†;
२०; ८, १९†; ९, ४; १०,
२७; ४२; १३, ९; -र्थयोः मीस्
१०, ६, ५८; -र्थस्य वाश्रौ २, १,
८, १६†; निम्; कौस् ११९,
२^१; या १, १९; पा १, २, ५६;
पावा १, १, ६८; -र्थाः आश्रौ २,
८, ४; शांश्रौ; या १०, ३४;
पावा १, ४, २१; -र्थान् आश्रौ
२, १४, १४; काश्रौ; पावा ५, २,
१३५; -र्थान् आपश्रौ १९, १,
१३; माश्रौ; या १, ३; ४; ७, ४;
९, १९; पावा १, ४, १०९;
-र्थानाम् या १, २; २०; २, २५;
मीस्; -र्थानि आपश्रौ १६, ११,
१; हिश्रौ ११, ४, १३; -र्थाय
आमिग्य १, २, २ : २४; हिग्य;
-र्थायऽ-र्थाय आपश्रौ २४, ४,
२२; वैश्रौ; -र्थे शांश्रौ १, १६;

५; बौश्री; या १, ४; ५; ९; १३;
१४; २, १; पा ६, २, ४४; ३,
१००; पावा १, १, ६८; २,
६४; ३, ७८; २, १, ५१; ३,
३, १६१; ५, ३, ७४; ८, १,
३०; पापवा २; -र्थेन वाधूश्रौ
४, ३७ : ११; हिश्रौ; पावा
२, १, ३६; मीस् १०, ६,
७४^१; -र्थेभ्यः भाग्य १, ११ : ५;
-र्थेषु आपश्रौ १७, २४, ११;
हिश्रौ; या १, ४; ११; ११, २७;
-र्थैः कौग्य ३, १०, ३५; शांश्रौ २,
१७, ४; वृदे १, ७.

आर्थिक- पा ४, ४, ४०.

अर्थ-कर्मन्^१- -र्म मीस् ३, ७,
१६; ४, २, १७^१; २१; ११, २,
६६; १२, ४, ९; १५; १६; -र्मणः
आश्रौ ९, १३, १३; वैश्रौ २०,
२८ : १३; -र्मसु मीस् ४,
१, ९.

अर्थकर्म-व- -त्वात् मीस् ४,
४, २७.

१अर्थ-काम^६- पाग २, २, ३१;
-र्मो विघ ७१, ८४.

२अर्थ-काम^१- -मः हिपि ७ : ३;
अप ७२, ५, २; -मम् गौपि २,
३, ३१.

अर्थ-कारण- -णात् वाश्रौ १,
१, १, ६३.

अर्थ-कारित, ता- -तः निम् ६,

a) =देश-विशेष-। व्यु. ?। आर्जुनाद्- इति पाका.। b) वैप १, परि. च द्र.। c) अर्थः व्यु. च ?।

d) =देश-विशेष- ?। e) =कृतछन्दो-विशेष-। f) पाभे. वैप १ परि. अर्णवाय मै ३, १२, १२ टि. द्र.। g) अर्थः ?।

h) =द्वापरच्छन्दो-विशेष-। i) =✓ऋत् (गतौ Lवैप १ द्र.)। j) विप.(आर्त्ता-). कर्तरि ल्युट् प्र. (वैतु. स्क्र.

आ° L<✓ऋ इति)। k) =आर्ति- द्र.। l) प्रथमम् अर्तिम् इत्यस्य स्थाने सप्र. मंत्रा १, ६, १४ प्र सुमर्थ्यम्

इति, आपमं २, ३, १ प्र सु सृष्ट्युम् इति, हिग्य १, ५, २ प्र स सृष्ट्युम् (BC. प्र सु सृ°) इति च पाभे.। m) वैप

१ द्र.। n) पाभे. वैप २, ३ सं. यज्ञ° तैत्रा ३, ७, ११, ५ टि. द्र.। o) =अर्थसूक्त- (तु. सप्र. अप ३२, १, २५

अर्थसूक्तम् इति पाभे.)। p) अर्थेन इति प्रयासं.। q) कस.। r) पूष. =प्रधान-। s) दस.। t) बस.

वा उस. वा।

१२ : १६; -तम् निस् १०, २ :
 २३; -ता आश्रौ २, ६, १८;
 -ते मीस् ९, १, १२.
 अर्थ-कार्य- -र्येषु विध ३, १८.
 अर्थ-काल-त्व- -त्वात् मीस्
 ११, ३, ४.
 अर्थ-कृत- -तस्य मीस् ३, ३,
 १८; -ते मीस् ५, १, ६.
 अर्थकृत-त्व- -त्वात् मीस् ९,
 २, ४०; ४, ३.
 अर्थ-कृत्य- -त्येषु शंघ २५१.
 अर्थ-गत- पाग २, २, ३७.
 अर्थ-गति- -तिः पावा १, २,
 ५१; २, १, ३०; -तेः पावा १, १,
 ६८^२; ३, १.
 अर्थ-ग्रहण- -णम् पावा १, १,
 ११; २, १, ३०; ३, १२; ७,
 २, ९८; -णात् पावा १, १, १९.
 °अर्थ-ग्रहण- -णम् पावा २,
 २, २४.
 अर्थ-ग्राहिन्- -हिणः आपध १,
 २४, २३; हिधि १, ६, ७१.
 अर्थ-चर्या- -र्याम् आगृ ३, ७, ८.
 अर्थ-चोदित- -तानाम् मीस्
 १०, ५, २१.
 अर्थ-जात^२- -तेषु विध ९, ४^b.
 अर्थ-ज्ञ- -ज्ञः या १, १८.
 अर्थज्ञ-प्रशांसा- -सा या १,
 १९.
 अर्थ-तस् (:) काश्रौ १, ३, ४;
 हिपि १९ : ३; वृदे; पावा १,
 ३, १०; २, २, २३.
 अर्थ-तस्व^c-ज्ञ- -ज्ञः वृदे १,
 ११८.
 °अर्थ-स्व- -त्वात् पावा ३, १,

२६^२; ४, ८.
 अर्थ-दर्शन- -नात् पाप्रवा ५,
 ९; १५.
 अर्थ-दूषण- -णम् विध ३, ५२.
 अर्थ-द्रव्य-विरोध^d- -धे काश्रौ
 १, ४, १६; आपश्रौ २४, ३, ४८;
 मीस् ६, ३, ४०.
 अर्थ-धन^e- -नेन अप ७०, ७, १.
 १ अर्थ-धर्म^c- -र्मः मीस् ७, ४,
 १७^f.
 अर्थधर्म-स्व- -त्वात् मीस् ३,
 ३, ४४.
 २ अर्थ-धर्म^k- -पाग २, २, ३१;
 -र्मयोः शंघ २७१.
 अर्थ-नाश- -शाय आज्यो ६, ५.
 अर्थ-निचय^h- -यैः अप ७०,
 ७, ३.
 अर्थ-नित्य^h- -त्यः या २, १.
 अर्थ-नियम- -मे पावा १, ४,
 २१; २, २, २४.
 अर्थ-निर्देश- -शः पावा ४, ३,
 १४१; ८, १, ९; -शात् मीस्
 ७, ३, ३०.
 अर्थनिर्देशा(श-अर्थ)- -र्थः
 पावा १, १, ४४.
 अर्थ-निर्वचन- -नम् द्राश्रौ १,
 ३, २३.
 अर्थ-निर्वृत्ति- -त्तिः मीस् ६,
 ३, २; -त्तेः काश्रौ १, ५, २;
 आपश्रौ २४, १, ४१; मीस् ९, २,
 ४५; ११, ४, ५२.
 अर्थ-निवृत्ति- -त्तिः पावा १, १,
 ६८.
 अर्थ-पति- -तौ द्रागृ ४, १,
 १३^l.

अर्थपत्य- -स्यम् अन्नम्
 १; या ७, १.
 अर्थपति-चक्षुर्-विषय^l- -ये
 गोगृ ४, ५, २८^l.
 अर्थ-पर^h-त्व- -त्वात् मीस् ५,
 ४, १.
 अर्थ-परिमाण^h- -गानि काठश्रौ
 ७; कागृउ ४६ : ४.
 अर्थ-पाणि^h- -णिः अप ६७, ५, ३
 अर्थ-पादा(द-आ)दि^d- -दिषु
 अप्रा १, १, १८; -दौ अप्रा २,
 ४, ३.
 अर्थ-पूर्वक^h-त्व- -त्वात् शुप्रा
 १, २.
 अर्थ-पृथक्त्व- -त्रम् या १, ४;
 -त्वात् हिथौ १, १, ४१; मीस्
 ४, ३, ६; ११, १, १५.
 अर्थ-पौर्वापर्या(र्य-अ)भिधान^l-
 -नम् पावा २, २, २९.
 अर्थ-प्रत्यय- -यः या १, १५.
 °अर्थ-प्रत्यय- -ये पा ३,
 ४, ६२; -येन पा २, ३, ३०.
 अर्थप्रत्यय-कृत^k- -तः अप्रा
 १, १, २८; २, ५; ९; ३, २.
 अर्थ-प्रमाण- -णम् विध ९, ३.
 अर्थ-प्रयुक्त^k- -के पापवा १.
 °अर्थ-प्रयोग- -गे पा २, ३,
 ६४.
 अर्थ-प्रसंख्या- -स्यया काश्रौ
 १, १०, ३,
 अर्थ-प्रा(प्र-अ)ध्व^l- -ध्वस्य
 आपध ९, २.
 अर्थ-प्रास^k-वत् मीस् १०, ८, २.
 अर्थ-बान्धव^h-व(त>)ती-ती
 अप २४, ५, ३.

a) षस. उप. =समूह-। b) अर्थेषु इति जीसं.। c) षस.। d) द्वस.>षस.। e) मलो. कस.।
 f) °धर्मत्वात् इति जीसं.। g) द्वस.। h) विप.। बस.। i) सप्र. अर्थपतौ प्रेक्षमाणे<>अर्थपति-
 चक्षुर्विषये इति पाभे.। j) षस.>षस.। k) तृस.। l) तृस. उप. प्रास.।

अर्थ-भागिन्^१ - नी शंख २७७.
 अर्थ-भाव^२ - वः पावा १, २, ४५.
 अर्थ-भेद^३ - दः मीस् ११, १, ६; -दात् शाश्रौ ६, १, ५; मीस् ५, २, १६; ६, ८, ३७. #
 अर्थ-मनस्^४ - नाः गोगुष्ठ, ५, ८.
 अर्थ-रूप^५ - पम् निस् १०, ११ : २१.
 १ अर्थ-लक्षण^६ - णः मीस् १०, ३, ३६.
 °अर्थ-लक्षण - णे पा ३, ३, ८.
 २ अर्थ-लक्षण, णा^७ - णम् मीस् ११, १, २६; -णाः मीस् ४, १, २.
 अर्थलक्षणग्रहण^८ - णम् कौगु १, ४, १०; शागु १, ९, २.
 अर्थ-लाभ^९ - भम् अप ६८, २, ९; -भाय अप ६८, २, १८.
 अर्थ-लुप्त^{१०} - सः शाश्रौ १४, ४०, १८; -सम् वौश्रौ २७, १ : ५; मीस् १०, २, ४७; -सानि हिश्रौ ३, ८, ५३; कौस् ६३, ११.
 अर्थ-लोप^{११} - पात् आपश्रौ २४, ४, २; अप्राय ६, ८; मीस् ३, १, ८; ९, २, ३७; १०, २, १; ११, ३, ५३; -पे शाश्रौ ३, १९, २.
 °अर्थ-वचन - नम् पावा १, ४, ७४; २, १, ५९.
 अर्थ-वत् - वत् काश्रौ २, ३, ८; ५, ८, ८XX; पायु; पा १, २, ४५; पावा; -वतः पावा १,

१, २०; -वता पा ५, ४, १५२; -वति पावा १, २, ४५; -वन्तः या १, १६; पाप्रवा ५, ९; -वान् गोगु ४, ५, ३१; ऋप्रा ११, ६९; मीस् ११, १, ३३.
 अर्थवत्-ता - ता पावा १, २, ४५; मीस् १, ४, १८.
 अर्थवत्-स्व - स्वम् काश्रौ १, ८, ६; मीस् १२, ३, १५; -त्वात् पावा १, २, ४५; ३, १, ३०; ३, १३२; ८, ३, ५६; मीस् २, १, २१XX; -त्वेन मीस् ४, ३, १०; ६, २, २२.
 अर्थवत्त्वो(त्व-उ)पपत्ति^{१२} - त्तिभ्याम् मीस् १, २, २६.
 अर्थवत्-समुदाय^{१३} - यानाम् पावा १, २, ४५.
 अर्थवद्-अनर्थक^{१४} - स्व - स्वे पावा १, २, ४५.
 अर्थवद्-ग्रहण^{१५} - णात् पावा १, १, १३; २०XX; -णे पावा ८, २, ८५.
 अर्थवद्ग्रहण-प्रत्ययग्रहण^{१६} - णाभ्याम् पावा ६, ४, १.
 अर्थ-वश^{१७} - शम् वृदे २, ९९; -शात् ऋप्रा १२, २६; -शेन मीस् २, १, ३३.
 अर्थ-वाचक^{१८} - काः ऋप्रा १२, २०.
 अर्थ-वाद^{१९} - दः आपश्रौ २४, १, ३३; ३, ५१; हिश्रौ १, १, ९; मीस् १, २, ४३; ४६XX; -दम् वृदे ३, १०४; -दाः

हिश्रौ ६, १, ५; -दात् काश्रौ १३, १, १०; १८, २, ७; -दान् वृदे ३, ५३.
 अर्थवाद-गुणा(ए-अ)भाव^{२०} - वे मीस् १०, ७, २७.
 अर्थवाद-स्व - स्वम् मीस् १०, १, ३१; -स्वात् मीस् १०, २, ४; ५१.
 अर्थवाद-मात्र - त्रम् काश्रौ २५, ९, १२.
 अर्थवाद-वर्जम् आपश्रौ २४, ३, ५०.
 अर्थवादा(द-अ)तिदेश - शः मीस् ७, १, १७.
 अर्थवादा(द-अ)नुपपत्ति^{२१} - त्तेः मीस् ३, ३, २७.
 अर्थवादा(द-अ)नुपपात^{२२} - तात् मीस् ३, ४, २९.
 अर्थवादो(द-उ)पपत्ति^{२३} - त्तेः मीस् २, ३, १७; ४, ४, १६.
 अर्थ-विकरण^{२४} - णम् या १, ३.
 अर्थ-विकार^{२५} - रस्य शाश्रौ ६, १, ३.
 अर्थ-विज्ञ^{२६} - ज्ञाय अप १, ८, २; ८-१०.
 अर्थ-विद्^{२७} - वित् सुश्र १, १०; -विदः अप ६९, ६, १.
 अर्थ-विधि - धयः मीस् १०, ३, १०.
 अर्थविधि-स्व - स्वात् मीस् ७, २, २.
 अर्थ-विप्रकर्ष - षात् मीस् ३, ३, १४.
 अर्थ-विप्रतिषेध - धात् पावा

- a) विप.। उस. उप. ✓ भज् + चिनुण्। b) षस.। c) विप.। बस.। d) विप.।
 (वत्स-पाक-) उस.। e) विप. (कर्मन्- , लिप्सा-)। बस. उप. भाप.। f) समासः?।
 g) द्वस.। h) कस.। i) नाप. (पारिभाषिक-संज्ञा-)। j) द्वस. > षस.। k) विप.। उस. उप.
 < ✓ विद् [ज्ञाने]।

१, २, ६४; मीस् १, २, ३६; ३, ३, ३६; -धे हिश्रौ ३, १, २०.
 अर्थ-विवेक- -कः वृदे २, ११८.
 अर्थ-विशेष-लक्षण- -णात् पावा ४, १, ८५.
 अर्थ-विशेषा(ष-अ)संप्रत्यय-
 -ये पावा ४, १, ८८.
 अर्थ-वृद्धि-सहित^a- -तम् विध ५, १६९.
 अर्थ-वेद-सत्य^b- -त्यानाम् पावा ३, १, २५.
 अर्थ-वैरूप्य- -प्यात् वृदे १, २६.
 १ अर्थ-शब्द^c- -ब्दः भाशि ५३;
 -ब्देन मीस् २, ३, १८.
 २ अर्थ-शब्द^b- -पाग २, २, ३१;
 -ब्दाभ्यास् मीस् ५, ४, १.
 अर्थशब्द-तस(:) अप्रा १, १,
 ४.
 अर्थशब्दा(ब्द-अ)नपाय- -यात्
 मीस् १०, ४, २५.
 अर्थ-शास्त्र^d- -स्त्रम् चव्यू ४ :
 ११.
 अर्थ-शुद्धि- -द्धिः वैध ३, ३, ९.
 अर्थ-शेष-त्व- -त्वात् मीस् ४,
 २, १०; ६, ३, ४०; १०, ६, ७४;
 ११, १, २७.
 अर्थ-संयोग^e- -गः शांश्रौ १,
 १७, १; हिश्रौ १२, ८, २; -गात्
 काश्रौ १, ३, २८; मीस् १, ४,
 ११; ३, १, २६; ८, १३; ६,
 ३, १८; ८, १, २; १०, १, २३;
 ४, ३६.
 ?अर्थसंचयमानानाम्^f आज्यो
 २, ९.

अर्थ-संचार- -रे वृदे ४, ५१.
 अर्थ-संज्ञा-करण- -गम् पावा
 १, १, ४४.
 अर्थ-सत्^b- -सतोः पावा १, १,
 ६०.
 अर्थ-संनिपतित^c- -तम् लुस्
 ३, ११ : ३०.
 अर्थ-समन्वि(त>)ता^e- -ताम्
 भाशि १३०.
 अर्थ-समवाय- -यात् मीस् २,
 १, २०; ६, ४, १०.
 अर्थ-समाप्ति- -प्तिः वृदे १,
 १५; -प्तेः पावा ३, १, ४०.
 अर्थ-संबन्ध- -न्धः मीस् ४,
 २, ३१; -न्धात् मीस् १, २,
 ३५.
 अर्थ-सहिष्णु- -ष्णवः अप ६८,
 १, २८.
 अर्थ-साध(क>)की^b- -की
 आज्यो ७, ११.
 अर्थ-सामान्य- -न्यम् काश्रौ
 १, ४, १६; हिश्रौ ३, १, २०; मीस्
 ९, २, ४४; -न्यात् पावा ४, ४,
 ७६.
 अर्थ-सिद्धि- -द्धये अप २४, २,
 ४; ३, ३; -द्धिः कागृउ ४१ : ४;
 -द्धिम् वागृ ४, २६; १७, १८;
 आज्यो १०, ११.
 अर्थ-सूक्त- -क्तम् अप ३२, १,
 १८; २५^f; वृदे १, १५.
 अर्थसूक्त-प्रकृति- -तिः अअ
 ८, १.
 अर्थ-हर^d- -रः विध १५, ४०.
 अर्थ-हित^b- -तिः या ११, २५.

अर्थ-हेतु- -तोः वाध १६, ३७.
 अर्थहेतु-त्व- -त्वात् मीस् ३,
 ४, १०; ११, २, ५७.
 अर्था(र्थ-आ)गम- -मात् निस्
 ८, ११ : १७.
 अर्था(र्थ-अ)तिदेश- -शात्
 पावा १, २, ५८; ७, १, ७४; -शे
 पावा ६, ३, ३३.
 अर्था(र्थ-अ)तिशय-विवक्षा-
 -ह्यायाम् पावा ८, १, १२.
 अर्था(र्थ-आ)दि- -दिः भास् २,
 २.
 अर्था(र्थ-अ)नुपपत्ति- -त्तिः
 पावा ४, ३, ४२.
 अर्था(र्थ-अ)नुपलब्धि- -ब्धेः
 पापवा ५, १४.
 अर्था(र्थ-अ)न्तर- -रे मीस् १,
 ३, ३४; ४, २, ३०; ७, २, २; ९,
 ३, ४५; ४, ४१; -रेषु वाध १६,
 १२; मीस् ७, २, २०.
 अर्थान्तर-गमन^h- -नात्
 पापवा ५, १०; -ने मीस् ४, २,
 १९.
 अर्थान्तर-त्व- -त्वात् आपश्रौ
 ९, १, २; २४, १, ३७; भाश्रौ ९, १,
 २; आपश्रु १०, ९; हिश्रु ३,
 ४८; मीस् ६, २, ५; ८, ३८.
 अर्थान्तर-श्रुति- -तेः मीस्
 १०, ४, १४.
 अर्थान्तर-संयोग^e- -गात्
 हिश्रौ १५, १, २; मीस् १०, १,
 ४७.
 अर्था(र्थ-अ)न्यत्व- -त्वात् पावा
 ३, ३, १५१; मीस् १०, ४, ११;

a) षस. > लुस. । b) द्वस. । c) कस. । d) नाप. (उपवेद-विशेष-) । e) तृस. । f) पाठः ?
 अर्थसंचयकामानाम् इति शिवदत्त-शोधः । g) पंस. । h) विप. । षस. उप. षुन् प्र. उंसं. (पावा ३, १, १४५) ।
 i) पाभे. पृ ३६३ ० द. । j) विप. । उस. उप. कर्तरि कृत् । k) =प्रयोजनप्रयुक्तव्य- । मलो. कस. ।
 l) सस. ।

-त्वे मीस् ९, ३, ३६.
 अर्था(र्थ-आ)पत्ति^१- सतः मीस्
 ७, ४, १६^०; १८; १०, १, ३०; ३,
 ३५; ४, ३३; -स्या मीस् ९, १, ७.
 अर्था(र्थ-अ)परिमाण- -णात्
 मीस् ६, ४, ३७^०.
 अर्था(र्थ-अ)पाय- -यात् निस्
 ८, ११ : १६.
 अर्था(र्थ-अ)पे(क्षा>)क्ष^०- -क्षः
 आमिगृ ३, १, १ : ४; हिगृ २,
 १०, ३; हिध २, ५, ३३.
 अर्था(र्थ-अ)भाव^१- -वात् काश्रौ
 २२, ६, ६; वैगृ ५, १, २२; पावा
 ३, १, ४०^०; मीस् ३, ३, ४३; ६, ६,
 १३; ७, १, ८; ९, ३, २०; ४, ४९;
 १०, १, ९; ७, ६०; -वे मीस् १०,
 २, ७१.
 अर्था(र्थ-अ)भाव^१- -वात्
 पावा १, ३, ३; ७; २, १, ९.
 १ अर्था(र्थ-अ)भिधान^१- -नम्
 पावा ४, १, ८२^०; -ने पावा ३,
 १, २; ४, २, १; ८, १, ४.
 अर्थाभिधान-संयोग- -गात्
 मीस् ३, २, १^१; ९, १, ३६.
 २ अर्था(र्थ-अ)भिधान^०- >
 अर्थाभिधान-कर्मन्- -र्भ मीस्
 ४, १, २६.
 अर्था(र्थ-अ)भेद^१- -दात् पावा
 १, ३, १; २, २, ३०.
 अर्था(र्थ-अ)र्थ^०- -र्थस्य गोगृ १,
 ४, २०.
 अर्था(र्थ-अ)वधारण^१- -गात्
 पावा २, ३, ५०.

अर्था(र्थ-अ)वासि^१- -सैः काश्रौ
 १, ८, ४५; -सौ हिश्रौ ३, १, १९.
 अर्था(र्थ-अ)श्रय^०-त्व- -त्वात्
 पावा ३, १, १; ४, ४, ७६.
 अर्था(र्थ-अ)संदेह^१- -हः पावा ३,
 ३, १३२.
 अर्था(र्थ-अ)संनिधि^१- -धेः मीस्
 २, ४, १७.
 अर्था(र्थ-अ)संप्रत्यय^१- यः पावा
 १, १, ४४; -यात् पावा १, २,
 ६४.
 अर्थिन्^१- पावा ५, २, १३५;
 -र्थिनः आमिगृ ३, ९, २ : ९;
 वौषि २, ६, १२; अय १, ३२, ७;
 -र्थिनम् अय १, ४२, ६;
 -र्थिनाम् शंघ २६४; -र्थिने
 वौघ १, ११, २; -र्थी आपश्रौ १,
 ७, ५; भाश्रौ १, ७, २; ११, ११;
 ७, ६, ६; वौगृ ४, २, ११; हिपि
 १४ : २१; वृदे ३, ९६.
 अर्थि-त्व- -त्वात् मीस् ६, ३,
 ८.
 अर्थे ✓कृ पाग १, ४, ७४.
 अर्थे-गा^१- -गाः आपश्रौ ९, १६,
 ७१.
 अर्थे(र्थ-उ)न्^१- -र्थतः आपश्रौ
 १६, ३२, ५; १८, १३, १; वौश्रौ
 १२, ८ : ५; वैश्रौ १८, १६ : ४६;
 हिश्रौ ११, ८, ११; १३, ५, १२.
 अर्थे(र्थ-उ)प्सु- -प्सवः ऋअ १,
 २, ७; वृदे ८, १३७.
 अर्थे(र्थ-ए)कत्व^१- -त्वम् मीस्
 १, ३, ३०; -त्वात् मीस् २, १,

४४; ९, २, २९; ३०; -त्वे मीस्
 ३, १, ११.
 अर्थो(र्थ-उ)क्त- -क्तम् मीस् ३,
 ३, ३६.
 अर्थो(र्थ-उ)क्ति- -क्तिः लाश्रौ
 ९, ७, ११.
 अर्थो(र्थ-उ)पपत्ति^१- -त्तिभ्याम्
 मीस् १०, १, ३८.
 अर्थो(र्थ-उ)प(मा>)म^०- -मानि
 या ३, १८.
 अर्थ्ये- पा ४, ४, ९२; -र्थ्याः
 वौश्रौ १२, ८ : २४.
 ✓अर्दे^१ पाधा. भ्वा. पर. गतियाच-
 नयोः, चुरा. उभ. हिंसायाम्,
 अर्देति निघ २, १४१.
 अर्देयति निघ २, १९१; अर्देय
 शाश्रौ ३, १५, ४१.
 अर्देन- > ण-पातिन्^१-, ण-वे-
 धिन्^१- -तिनौ, -धिनी या ६,
 ३३.
 अर्देयत्- -यन् कौस् ३५, २७.
 अर्धे, धी^१- पाग २, ४, ३१^१; ६, २,
 १९३^०; -धेः वौश्रौ २९, ९ : ३१;
 माश्रौ ५, १, ६, १६; वाधूश्रौ ४,
 ९०^० : १२; शुअ २, ४१^१; ३,
 ४; -धम् आश्रौ १२, ९, १२^३;
 काश्रौ; आपश्रौ ९, १२, ४१^०;
 १४, २२, ३१^०; आपमं २,
 २२, २४१^०; आमिगृ ३, ७, २ :
 २१^०; या १, १९; ३, २००^०;
 पा २, २, २; -धम्-धम् आमिगृ
 १, ६, ३ : ९; अय २, ३, १;
 सुधप ८५ : १; -धयोः वेज्यो

- a) षस. । b) तदर्थो इति जीसं. । c) विप. । वस. । d) णसामर्थ्यात् इति प्रयास. ।
 e) वस. उप. =प्रयोजन- । f) वैप १, परि. च द्र. । g) वैप २, ३खं. द्र. । h) द्वस. । i) पा ३, १, ५१
 परामृष्टः द्र. । j) विप. (बाहु-) । उस. । k) विप., नाप. [(असम-भाग-पुं. [तु. फि.]), सम-भाग-[न.],
 अर्धकार्षापण-[पा ५, १, ४८]] । शिष्टं वैप १, परि. च द्र. । l) तु. पागम. । m) अर्धपुर- इति पासि., आर्ध-
 इति पक्षे भारुडा. । n) पाभे. वैप १ परि. अर्थम् ऋ १०, १८, ४ टि. द्र. ।

११; -र्धस्य अप ४८, ११९†; विध; या ३, २०; अप्रा १, २, ३; कौशि ५; फि ३६; -र्धा शुप्रा १, ६१†; -र्धाः आश्रौ ५, १४, २२; काश्रौ; -र्धात् आपशु १२, ३XX; हिशु ४, २९^aXX; दंवि २, १; पा ४, ३, ४; ५, ४, १००; ७, ३, २६; पावा ५, १, २५; -र्धान् बौश्रौ २, १६: १९XX; भाश्रौ; -र्धानि बौश्रौ ३, ३०: ९; द्राश्रौ; -र्धे आश्रौ ५, ६, १; काश्रौ; या १२, ७†; पावा ५, ३, ३२; -र्धेऽ-र्धे आपशु २, २; -र्धेन काश्रौ ७, ८, १०; आपश्रौ; आपध १, २, १४^b; -र्धेषु बौश्रौ २३, २: ३१; -र्धेः हिश्रौ १, ७, ४९^c.
अर्ध-क^c - कान् काशु ६, ११.
अर्ध-काञ्चन^d - नम् शंघ ४४६.
अर्ध-को(टि>)टी^e - टी शंघ ८०.
अर्ध-खात^f - तम् अप २३, २, २.
अर्ध-खार-०रि- पा ५, ४, १०१.
†अर्ध-गर्भ^g - गर्भाः ऋअ २, १, १६४; अअ ९, १०; या १४, २१८.
अर्ध-ग्रह^h - हम् माश्रौ २, ३, ५, ४.
अर्ध-चतसृⁱ - स्रः या १४, ७.
अर्ध-चतुर्थ^j - र्थाः बौश्रौ २६, ३: १७; -र्थान् बौश्रौ १५, ११: ९; कौस् १३७, ६.

अर्धचतुर्थी- -र्थ्यः बौशु ११: २.
अर्ध-चतुर्दश^k - शैः बौश्रौ १८, ५: २०; २६, ३०: १६.
अर्ध-चन्द्र^l - चन्द्रम् अप २५, १, ३; ६.
अर्धचन्द्र-क^m - कम् अप २५, १, ११.
?अर्ध-चन्द्रा(द-आ)कारⁿ - रम् वैश्रौ १, ३: २; वैश्रु ४, १३: ८; ९.
अर्ध-तृतीय, या^o - ययोः हिशु २, ३९; -या वाधृश्रौ ४, ९२: ४; -यानिऽ-यानि आश्रौ १२, ५, १९.
अर्धतृतीय-क^p - केन हिशु २, ३९.
अर्धतृतीय-पुरु(प>)पा^q - वाः आपशु ३, १४.
अर्धतृतीय-मा(त्रा>)त्र^r - त्रम् तैत्रा १८, १.
अर्ध-त्रयोदशन्^s - श शंघ ३२२.
अर्ध-दशम, मा^t - माः आपशु १५, ८; बौशु ५: २; हिशु ५, १३.
अर्ध-देवता^u - ते निस् ६, ७: ७.
अर्ध-नवम^v - माः बौशु ५: १.
अर्ध-नामन्^w - म या १, ७.
अर्ध-नाव- पा ५, ४, १००.
अर्ध-पञ्चदशन्^x - शशाश्रौ १३, १८, ५.

अर्ध-पञ्चम, मा^y - माः बौश्रौ २६, ३: ११; ऋअ २, ७, ६३; वृदे ६, ५; -मान् काशु ९, १०; माशु १, ४, ७; वाशु ८, ७; वैशु २, १२: २१; द्राशु ३, २, २४; कौस् १३९, २०; १४१, २; वाध १३, ५; आपध १, ९, ३; विध ३०, १; हिध १, ३, ३; गौध १६, २^c; -मेषु काठश्रौ ९८; -मैः आपशु ७, १; हिशु २, ४७.
अर्धपञ्चम-भ^z - भः वेज्यो १०.
अर्ध-पद^{aa} - दम् लाश्रौ ७, ७, ५; -देन बौशु १०: ३; २९.
अर्ध-प(द्य>)घा^{ab} - घाः काश्रौ १७, ११, ७; -घे काश्रौ १७, १, १५.
अर्ध-परिजि(त>)ता^{ac} - तायाम् वाधृश्रौ ४, ७५: ३.
अर्ध-पात्र^{ad} - त्रम् बौश्रौ ५, ११: २; २०; २१, ४: ५; भाश्रौ ८, १६, ९; वैश्रौ ९, ४: १०; आमिश्रु ३, ८, १: ६; २: ४०; बौपि १, १४: ६; १५: ४७; -त्रे माश्रौ १, ७, ६, २०^p.
अर्ध-पाद्^{ae} - पात् कप्र २, १, १२.
अर्ध-पाद^{af} - दम् बौश्रौ २८, २: ५३.
अर्ध-पिष्ट^{ag} - ष्टम् काश्रौ ५, १, ६; माश्रौ ५, १, ५, ७४.
अर्ध-पुर- अर्ध- टि. द्र.
अर्ध-पुरुष^{ah} - षः आपशु १५,

a) ०र्था इति पाठः? यनि. शोघः (तु. आपशु). b) सपा. अर्धेन <> अर्धेनम् इति पाठे. c) स्वार्थे कन् प्र. d) तस. उप. = सुवर्णमुद्रा-। e) तस. f) विप. (उल्लूखल-). कस. g) वैप १, परि. च द्र. h) कस. i) ऊनार्थे तुस. (तु. कैयटः [पाप्रवा ६, २]; वैतु. RNM. = सार्धचतस्र- इति). j) विप. बस. k) विप. तद्धितार्थे द्विस. l) विप. कस. > बस. m) षस. n) विप. (ऋतु-). बस. उप. = नक्षत्र-। o) नाप. कस. उप. = पादमात्रीष्टका-। p) सप्र. ०पात्रे <> ०क्षरावे इति पाठे.।

१२; बौशु १७ : ५; हिशु ५, २०; -षम् आपशु १९, १; हिशु ६, १६; -षयोः काश्रौ १६, ८, १; ४; १०; -वे काश्रौ १६, ८, ८; -वेण आपशु १५, १२; १८, ४; हिशु ५, २१; ६, ८.

अर्धपुरुष-न्यास^१ -सम् आपशु १५, ११; बौशु १० : ९; २० : ८; हिशु ५, १८.

अर्धपुरुषीय^२ -ययोः काश्रौ १६, ८, ५; -ये काश्रौ १६, ८, १३.

अर्ध-पूर्ण^३ -र्णम् काश्रौ ९, ६, २४.

अर्ध-पूर्व-पद^४ -द्ः पावा १, १, २३.

अर्ध-पूर्वा(वे-अ)नुदात्त^५ -त्तः ऋप्रा १५, ५.

अर्ध-प्रक्रम^६ -सम् बौशु ४ : ८.

अर्ध-प्रमाण^७ -गेन अप ३१, ५, ४; आपशु ३, १५; काशु ३, ८; हिशु १, ५६.

अर्ध-प्रादेश^८ -शेन काठश्रौ ९२; आपशु ७, २; बौशु ४ : १२; १२ : ९; हिशु २, ४९.

अर्ध-बृह(त् >)ती^९ -तीः काश्रौ १७, १, ८.

अर्ध-मध्यम^{१०} -मयोः आपशु १, १२; हिशु १, २२^१.

१ अर्ध-मात्र, त्रा^{११} -त्रः तैप्रा २२, १३; -त्रम् उस् १, १२; माशि १३, २; शैशि ३४; -त्रा शैशि १८२; -त्रात् शैशि ३५३; -त्रे अप २, ५, ४.

अर्ध-मात्रक^{१२} -कम् शैशि २४१. २ अर्ध-मात्रा^{१३} -त्रा ऋप्रा ३, ४; शुप्रा १, ५९; ४, १५०; १५१; ऋत २, ३, ८; ४, ५; ६, ३; पाशि २०; याशि १, ९१; -त्राम् शैशि १९५.

अर्धमात्रा(त्रा-आ)त्मक^{१४} -कः याशि १, १३.

अर्धमात्रा-स्वर^{१५} -रम् याशि २, १९.

अर्धमात्रिक^{१६} -कः कौशि ७८; -कम् याशि १, १६.

अर्ध-मानुष^{१७} -वत् -वन्ति अप ७०^२, १०, ४.

अर्ध-मास^{१८} -मासि बौध १, ५, ७६.

अर्ध-मास^{१९} -सः बौश्रौ २६, ३ : १; वाधुश्रौ; -सम् काश्रौ २२, १०, २६; बौश्रौ; -सयोः बौश्रौ १६, २४ : १०^१; -सस्य वाधुश्रौ ४, ११० : २; -स्ताः शांश्रौ १४, २, १३^२ × ×; आपश्रौ;

कौशु ३, १५, ५^३; शांशु ३, १२, ५^४; -सात् वाधुश्रौ ४, १९^५ : १; -संसान् आपश्रौ १, ६, ४; वाधुश्रौ; कौशु ३, १५, ३^६;

-सान्-सान् आमिगु ३, ८, १ : २; -सानाम् अत्र १६, ८^१; या ५, २१; -साय अप २३, ८, २; -साय-साय बौश्रौ २८, १२ : २०; हिपि २१ : ५; ६; -से आपश्रौ ५, २१, २; ८, २०, १; भाश्रौ; -से-से बौशु ३, ८, १; अप ३८, ३,

६; या ६, ३५; -सेन बौश्रौ २६, ३ : ७^२ × ×; वाधुश्रौ; -सेभ्यः वाश्रौ ३, २, ४, १; कौशु; -सेषु आमिगु ३, ६, ३ : २; ७, २ : १५; बौपि १, १७ : ३४; -सैः^३ बौश्रौ २, १० : ५; आपमं २, १९, ६; आमिगु ३, १, १ : १८; बौशु २, ११, २७; भागु २, ११ : ५६; हिगु २, १०, ७.

अर्धमास-तम^{२०} -पा ५, २, ५७.

अर्धमास-पर्वन्^{२१} -र्वं या १, २०.

अर्धमास-मास-त्रैमास्य-षण्-मास्य^{२२} -स्यानि काश्रौ २०, ३, ६.

१ अर्धमास-व्रत^{२३} -तेषु गोशु ४, ५, २५.

अर्धमासव्रतिन्^{२४} -ती द्राशु ४, १, ५; १२; २-३, १.

२ अर्धमास-व्रत^{२५} -तः गोशु ४, ६, १२; -ते गोशु ४, ८, ११.

अर्धमास-शसः(ः) वाधुश्रौ ४, ११० : २.

अर्धमास-स्तोम^{२६} -माः शांश्रौ १४, ७७, १.

अर्धमासा(स-आ)यत(न >) ना^{२७} -नाः आपश्रौ २१, १, १४; हिश्रौ १६, १, ९.

अर्धमासे(स-इ)ज्या^{२८} -ज्याम् या ११, ६.

अर्ध-युग^{२९} -गेन आपशु ६, ७; हिशु २, ३६.

अर्ध-रात्र^{३०} -त्रम् पागु ३, ४, ८; -त्रात् भागु ४, ८, १३; जैगु

a) विप. । बस. । b) विप. (अङ्कु-). छ > ईयः प्र. उंसं. (पा ४, २, १३८) । c) कस. । d)

बस. > कस. । e) विप. (प्रस्वार- [ओकार-]) । बस. > बस. । f) तस. । g) नाप. (इष्टका-विशेष-). ।

h) वस. । i) ष्वयोः इति पाठः ? यनि. शोषः । j) कस. उप. = मनुष्य-देह- । k) पाप्मे.

वैप १ परि. अर्धमासाः शौ ११, ९, २० टि. द्र. । l) बस. ।

१, २२ : २५; आपध १, ९, २४; ३२, १४; हिध १, ३, २५; गौध १६, ३०; या १२, १; -त्रे बौश्रौ ६, २१ : २८; २३ : १४; मागृ २, १४, ३०; कौस् १४१, १७; विध ६८, १०.

अर्धरात्रा(त्र-अ)र्ध-शायिन्^६-
-यिनाम् माशि १५, ९; याशि २, १०९.

१अर्ध(र्ध-ऋ)र्ध^६- पाग २, ४, ३१; -र्धेः वाधूश्रौ ४, ७ : ८; ९; अप; या ४, २७; १२, २; -र्धम् आश्रौ २, १६, २; ५, १४, ७; शाश्रौ; -र्धयोः आपगृ ११, १२; बौश्र २, ५, ४०; ऋप्रा १०, १८; -र्धस्य वृदे ३, ७८; -र्धाः आश्रौ ७, ३, १४; ऋअ; पा २, ४, ३१; -र्धात् आपश्रौ १२, २७, १६; १४, ३२, ६; बौश्रौ; -र्धानाम् ऋअ ३, ४४; -र्धाभ्याम् आपश्रौ १६, २७, ७; वाश्रौ; -र्धे आश्रौ १, २, १०XX; शाश्रौ; -र्धेऽर्धे आश्रौ ५, १०, ७; -र्धेन आश्रौ ४, ६, ३; शाश्रौ; -र्धेषु आश्रौ ५, १, ७; आपश्रौ; -र्धेः आमिगृ २, ४, ६ : ३३; -र्धौ आश्रौ ३, ६, ८; शाश्रौ.

अर्धर्ध-न्या(य>)या^६-
-याः शाश्रौ १, १, २६.

अर्धर्ध-भाग- -गम् माश्रौ ५, १, ४, २०.

अर्धर्ध-शसः(ः) आश्रौ ५, ९,

२०XX; शाश्रौ.

अर्धर्ध-शस्य^६- -स्ये वैताश्रौ २१, ४.

अर्धर्धशस्य-वत् वैताश्रौ २६, ३.

अर्धर्ध-संतान^६- -नः आपश्रौ २४, ११, १४.

२अर्ध(र्ध>)र्धा^६- -र्धांम् वैध २, २, ६.

अर्धर्धा(र्ध-अ)र्धा^६- -दिगु आश्रौ ७, ११, २८; -र्धौ उस् ४, १४; -र्धोः आश्रौ ७, ११, १.

अर्धर्धा((र्ध-अ)न्त^६- -न्तम् वैताश्रौ २१, ४; उस् ४, १०; कौशि ४६; -न्ते वैश्रौ १०, १९; १५; ऋप्रा ९, ४०; १५, १८; -न्तेः आश्रौ ५, १३, ६.

अर्धर्धा(र्ध-अ)न्तर^६- -रे काश्रौ ६, ८, १६.

अर्धर्धा(र्ध-अ)न्त्य^६- -न्त्यम् ऋप्रा १०, ९.

अर्धर्धो(र्ध-उ)र्ध^६- -र्धेषु ऋप्रा १५, १३.

अर्ध-वनिष्टु^६- -न्तुम् बौश्रौ ४, ९ : ३५^२.

अर्ध-वर्ष^६- -र्धेषु अप ५३, ६, ६.

अर्ध-वाहन^६-(>अर्धवाह-
निक- पा.) पाग ४, ४, १२.

अर्ध-वेला^६- -लाम् बौश्रौ ६, १४ : १७; २१ : २; ७, ५ : १२; १९ : ४; ८, ९ : १८.

अर्ध-व्याम^६- -मे काश्रौ ७, २, ३.

अर्ध-व्यायाम^६- -मेन आपगृ ७, ७; बौश्रु ११ : ४; १२ : १०; हिश्रु २, ५५.

अर्धव्यायाम-वेला^६-
-लायाम् बौश्रु ८ : २१.

अर्ध-व्रत^६- -तम् काश्रौ ८, ३, १६; आपश्रौ ११, १५, ७; हिश्रौ ७, ४, ५१; ५३; -ता? काश्रौसं ३६ : ७; -ते काश्रौ ८, ६, २८; माश्रौ २, २, २, १; ४, १३.

अर्ध-शत^६- -तम् बौध १, ४, ९.
अर्ध-शराव^६- -वे आपश्रौ ८, १४, १४^१; हिश्रौ ५, ४, ३६^१; हिपि १५ : १६.

अर्ध-शसः(ः) काश्रौ १२, १, १५.

अर्ध-शाणी-पक्ष^६- -क्षम् आपध १, २४, ११; हिध १, ६, ६०.

अर्ध-शिरस^६- -रसि आपश्रौ ७, १३, ८^५; वैश्रौ १०, १० : ११^५; १६; हिश्रौ ४, ३, १८^५; २५; आगृ ४, ८, १५.

अर्ध-शीर्ष^६- -र्षम् भाश्रौ ७, १०, ७^५.

अर्ध-शुष्क^६- -ष्के अप २३, ४, १.

अर्ध-पङ्-अङ्गुल^६- -लम् कप १, ८, १३.

अर्ध-षष्ठ^६- -ष्ठान् कौश्रु ३, ८, ३;

शांश्रु ४, ६, ८; पागृ २, ११, १०;

कागृ ९, १०; मागृ १, ४, ७; वैगृ २, १२ : २१; वाध १३, ५; -ष्टेषु कौश्रु ३, ९, ४९; शांश्रु ४, ७, ५३.

a) विप. (अर्धरात्रेऽर्धशयनशील-) उत्तमजातीय-हृय-) । सस.>उस. । b) नाप. । तस. समासान्तः

अः प्र. । c) विप. । बस. । d) =शस्त्र- । उस. उप. <√शंस । e) षस. । f) विप. (सावित्री-) । तद्धितार्थे द्विस. ।

g) तस. । h) षह- इति पाका., पागम. । i) तस. उप. =मात्रा- इति भवस्वामी । j) कस. उप. =दुग्ध- ।

k) कस. । l) पाभे. पृ ३६८ p द्र. । m) नाप. (शाणी-चतुर्थभाग-) । तस.>षस. । n) पाभे. पृ १२७ r द्र. ।

o) =सार्धपञ्चाङ्गुल-परिमित- । विप. । तुस.>तद्धितार्थे द्विस. ।

अर्धवृष्ट-पदा(द-आ)याम^a -
-मम् बौशु १० : ९.

अर्ध-षोडश^b -शाः बौश्रौ २६,
२ : २५; -शैः बौश्रौ २६,
१ : १.

अर्ध-संयोग- -गे याशि २, २४.

अर्ध-संवत्सर^c -रे शंघ २४.

अर्ध-सदृश- -शम् तैप्रा ११,
१९^d.

अर्ध-सप्तदश^b -शेषु काश्रौ ८,
३, १०; -शैः बौश्रौ १२, २० :
२८; २६, १ : १; २ : २५.

अर्ध-सप्तम^b -मान् शाणु ४,
६, ७; पाणु २, ११, ११.

अर्ध-सोम^d -मम् काश्रौ ९,
१, ५.

अर्ध-स्तन-व्रत^e -तम् बौश्रौ
६, २४ : ४; ५; १०, ५० :
१०; ११; २१, १५ : ३३;
३४.

अर्धस्तनव्रत-प्रदान- -ने
बौश्रौ २१, १५ : ३२.

अर्ध-स्वर-भक्ति^f - -त्तया ऋप्रा
१३, ३२.

अर्ध-हर^g -रः विध १८, ३२.

अर्ध-हायन^b -नाः वाश्रौ ३,
४, ३, १८.

अर्ध-हुत^d -ते अप्राय २, ९.

अर्ध-ह्रस्व^h -स्वम् पा १, २,
३२.

अर्धह्रस्वो(स्व-उ)दात्त^d -

-तात् पावा १, २, ३२.

अर्धा(र्ध-अ)क्ष^e -क्षेण आपशु
६, ७; हिशु २, ३६.

अर्धा(र्ध-अ)कुल^e -लम् वैश्रौ

११, ९ : १२; अप २३, ३,
३.

अर्धा(र्ध-आ)देश^d -शात् निसू
८, ११ : १६.

अर्धा(र्ध-अ)ध्व^d -ध्वे आपश्रौ
५, १४, १२; १३; ७, २३, ५;
१३, २०, ४; १५, १३, १०;

भाश्रौ ११, १३, १५; वैश्रौ १,
१२ : १६.

अर्धा(र्ध-अ)नुवाक^c -कस्य
वाश्रौ ३, ४, १, ४८.

अर्धा(र्ध-अ)नूक^e -कम् काश्रौ
१७, ६, १०.

अर्धा(र्ध-अ)न्तर^b -रेषु अप
६५, १, ६.

अर्धा(र्ध-आ)याम^c -मः काश्रौ
८, ६, ४.

अर्धा(र्ध-अ)र्ध-हानि^d -निः
शंघ २७५.

अर्धा(र्ध-आ)श्ले(षा >)ष^l -
-षस्य बौश्रौ २६, २९ : ६.

अर्धा(र्ध-अ)ष्टम, मा^b -मा बुदे
३, ९७; -माः बौशु ५ : १;

-माभिः बौशु ५ : ८.

अर्धा(र्ध-अ)स्तमित^d -ते बौश्रौ
२६, २२ : ५; आणु ३, ७, ४;

कौणु २, ६, ३; अप ४१, ४,
१.

अर्धास्तमित-सूर्य^d -र्ये वैश्रौ
२, १ : ३.

अर्धा(र्ध-आ)हुति^e -तिः कौसू
७३, १२.

अर्धिक- पा ५, १, ४८; पावा
५, १, २५.

†अर्धिन- -र्धिनः आपश्रौ २१,

२, १७; माश्रौ २, ४, ५, ८; वाश्रौ
३, २, १, १३; हिश्रौ १०, ४,
४२; १६, १, ३६; -र्धिन्यः
माश्रौ २, ४, ५, ७; हिश्रौ १०,
४, ३९.

अर्धिनी- -नीभ्यः लाश्रौ
९, ६, ५; ११, ३; -न्यः लाश्रौ
९, १, ११.

अर्धे(र्ध-इ)डा-ब्राह्मण^o -णम्
निसू ३, ११ : ५.

अर्धे(र्ध-इ)ष्टका^e -का बौशु १० :
३१; -काः आपशु २०, १०;

१२; बौशु ९ : २; ४; १० :
२४; ३२; २० : १९; २३; २४;

हिशु ६, ५०; ५२; -कामिः
आपशु २०, १५; बौशु १४ :

५; ९; १५ : ६; १७ : १०; १५;
१९ : ८; २० : २०; २५; हिशु

६, ५५; -काम्याम् आपशु २०,
७; हिशु ६, ४७; -काम् आपशु

१९, ४; बौशु ९ : ५; १०; १० :
४; हिशु ६, १९; -के बौशु ९ :

८; १४ : ३.

अर्धेष्टका-मात्र- -त्राणि

आपशु १०, २; हिशु ३, ४०.

अर्धे(र्ध-उ)त्तरपद^b -दस्य

पावा ५, ३, ३२.

अर्धे(र्ध-उ)दक-पात्र^o -त्रम्
आमिश्रु ३, ११, ३ : ४.

अर्धे(र्ध-उ)दित^d -ते आपश्रौ
५, १३, १; बौश्रौ २, १७ : १४;

भाश्रौ ५, ९, १; हिश्रौ ३, ४, २;
अप ४१, ४, १.

अर्धे(र्ध-ऊ)न, ना^l -नम् हिध
१, १, ४७^k; -ना ऋप्रा १, ३५;

a) कस. > बस. । b) विप. । बस. । c) तस. । d) कस. ।

उस. उप. कर्त्तरि कृत् । g) कस. उप. = ह्रस्व-दीर्घ-प्लुत- । h) षस. ।

नक्षत्र- । j) तुस. । k) पांशे. पृ ३६८ b द. ।

e) कस. > षस. । f) विप. ।

i) विप. । बस. उप. = ब्राह्मण-

नक्षत्र- ।

उस् १, १४.

अर्धौ(र्ध-ओ)कार- रात् आश्रौ
७, ११, १८; -रात् आश्रौ ७,
११, ३.अर्ध्या, ध्या- पा ४, ३, ४; -ध्याः
बौशु ९: १; १०: २; १४: ३;
४; ८; १५: ५; १७: ८; १९:
७; २०: १४; २१: ११;
-ध्याभिः बौशु १८: ६.

✓अर्धि>अर्धयित्वा या ३, ६.

†अर्धुक, का- -कः आमिष्ट २,
१, ५: ३२; भाग १, २६: ११;
हिग २, ४, १२; -कम् बौश्री
१७, ५०: २१; भावि ८१:
-का आपश्रौ ६, ७, ८; बौश्री
१५, २६: ३.

अर्ध- प्रभृ. ✓अर्ध द्र.

‡अर्धयितः आमिष्ट ३, ११, ४:
४५.

अर्धर्च- प्रभृ. ✓अर्ध द्र.

✓*अर्ध, अर्धयति बौश्री १४, ५: १;
६; वैगृ ४, ७: ६; अर्धयन्ति
शाश्री १६, १७, ११; आपश्री
१८, ५, १६; कागृ ५२, १०;
अर्धयामि आपश्री ७, ५, ३;†
†अर्धय बौश्री १०, ४६: १२;
हिश्री १२, २, २६; अर्धयेत् वैगृ
४, ४: १२; ६: ७; ५, १३: १८;
विध ५२, १; अर्धयेयम् आपश्री
१२, २९, १; १६, १, ६; माश्री
६, १, १, ६; हिश्री ८, ८, ५०;
११, १, ९.

अर्धयित्वा वैगृ ५, ४: ३७; १३:

२२.

†अर्धित- -तः शंघ ३३३; -तम्
या ४, २७; -ताः बौश्री १,
१६: ११; या ४, २७; -तानि^०
शाश्री १६, ६, १^२; लाश्री ९,
१०, ११; १२; -ते तैप्रा ४,
११.
अर्धितो(त-उ)त-> त्तो(त-उ)
त्त- पाग २, २, ३१.

अर्धित- पाउ ४, २.

✓अर्ध पाधा. भ्वा. पर. गतौ ।

अर्धुद- पाग २, ४, ३१; -दः आश्री
१०, ७, ५; शाश्री १६, २, १३;
बौश्री १७, १८: ६; सु २३, ३;
बौगृ ३, १०, ६; या ३, १०;†
१४, ६^०; ऋगृ २, १०, ९४^१; वृदे
७, १४६^१; सागृ १, ६३१-६३३^१;
-दम् आश्री^० ५, १२, ९; २३;
शाश्री ७, १५, १९^०; आपश्री
२२, २१, १७; छुसू २, ९: १८;
अप ४८, ६६^१; या ३, १०; दंवि
२, ३^१; -द्वय आश्री ५, १२,
१५^०; शाश्री^० ७, १५, ४-६; ९;
१०: १७; चागृ २: ९^१; -दानि
बौश्रीप्र ५४: १०; -दे शाश्री
१५, ११, ४; आपश्री १६, ३१,
११^१; बौश्री १८, ४२: २०;
४३: ६; २६, ३३: १२; वैश्री
१८, २०: ५१^१; हिश्री
११, ८, ४^१; -द्वैः विध ९६,
७६^१.आर्धुदि- -दिः ऋगृ २, १०, १७५;
वृदे ८, ७४.†अर्धुदि- -दिः ऋगृ ११, ९^१; अर्ध
३: ४८; अप्रा ३, ४, १.अर्धुदि-रूप- -पाणि कौसू १६,
२४.अर्म, र्मा- पाउ ३, १५२; -†र्मस्य^०
आपश्री १६, ३५, ५; हिश्री
११, ८, २३; -र्मात् ऋगृ १८,
२८^१.अर्म-क- पाउ ५, ५३; -†कः शाश्री
१०, ११, ८; अप ४८, ६७;
निघ ३, २; -कम् माश्री ३,
१, २८^१; कप्र २, ८, १९^१; निघ
३, २९^१; या ३, २०^१;†
-के या ४, १५^१; -†केभ्यः
आश्री १, ४, ९; शाश्री १५, २२,
१; आपश्री २४, १३, ३; बौश्री
३, २८: १५; माश्री ६, २, ४,
३; या ३, २०.अर्म- पाउ १, १४०; पागम २, ४,
३१^०; -र्मस्य लाश्री १०, १९, ९;
-र्माः लाश्री १०, १८, १३^०;
-र्मात् वाधूश्री ४, १०४: १४;
-र्मै पा ६, २, ९०.अर्म-कपाल- -लानि बौश्री ९,
१: ४; १६; १०, १: ४; १५;
वाधूश्री ४, १०४: १४; वैश्री
१३, ३: १; -†लैः आपश्री १६,
४, १; बौश्री ९, ३: ७; १०, ५:
३; माश्री ६, १, २, ३; वाश्री २,
१, १, ३४; हिश्री ११, १,
४४.अर्मकपाल-शार्करा- -राभिः वैश्री
१८, १: ५९.

- a) वैप १, परि. च द्र. । b) वैप १ द्र. । c) पाभे. वैप १ परि. अर्धितानि मा २३, ५१; ५२ टि.
द्र. । d) षा- इति पाउद्वे. । e) = गर्भस्थिति-विशेष- । f) = ऋषि-विशेष- । g) = सूक्त-विशेष- ।
h) षुष्ण इति पाठः ? यनि. शोषः । i) = अस्थि-विशेष- । j) विप. (त्रिबंधि- ?) । वस. । k) पाभे.
वैप १-परि. अर्धे ऋ १७, ९१, ८ टि. द्र. । l) अर्धपाथे कः प्र. (वैत. पाउद्व. < ✓ ऋष इति) । m) नाप.
(चक्षुरोग-) । नर्मन्- इत्यपि पाठः । n) लाश्री. भाव्ये मार्माः [ह्रवाः] इति ? ।

अर्मकपा(लक>)लिका^०-काम्
कौस् २६,११.

अर्च्यर्पा^०- पावा ४, १, ४९; -र्च्यः
आश्रौ ३, ७, ९; ६, ५, १९;
शाश्रौ ९, २०, २७; १२, १३,
२; काश्रौ २२, ५, १३; आपश्रौ
१७, २१, ७; हिश्रौ १२, ६, २६;
वैताश्रौ ३२, १७; ३८, ५; द्राश्रौ
११, ३, ४५; लाश्रौ ४, ३, ५५;
बौघ २, ५, १२; जैघ २, ९ : ३०;
अप ४८, ११४^०; निघ २, २२;
या ४, १९; ५, ९; १३, ४;
शैशि ३३१; पा ३, १, १०३५;
-र्चया या ३, २०^०; -र्चस्य
आपश्रौ १३, १६, ८^०; फि १७;
-र्चाः अप ४८, ७८^०; -र्चायाः
निस् ७, ४ : २४; -र्चै बौश्रौ ५,
८ : ४^०.

अर्चाणी- पा, पावा ४, १,
४९^०.

अर्च्य(ज>)जा^०-जायाः शाश्रौ
१६, ४, ६.

अर्च्य-जारा^०- रा शाश्रौ १६,
४, ४^०.

अर्चा(र्च-अ)भाव- वे द्राश्रौ
११, ३, ६; लाश्रौ ४, ३, ६.

अर्च्यमन्^०- पाउ १, १५९; -मणम्
वंताश्रौ २९, १९; आपमं;
आमिगृ २, ५, १ : ३७; ६, ८ :
१६६; -र्चमन् बौश्रौ १३,
२७ : २; ३९ : २; कागृ; -र्चमा

आश्रौ ७, ७, १; ९, ५, १६;
शाश्रौ; आगृ १, ७, १३^०; कौगृ १,
११, ४^०; शागृ १, १८, ३^०; पागृ
१, ६, २^०; मागृ १, ११, १२^०; या
६, ३१; ९, ३; ११, २३^०; १२,
३६; वेज्यो १०; ३२; -र्च्यः
शाश्रौ १३, २९, २६^०; आपश्रौ;
आमिगृ २, १, ३:१५^०; हिगृ २, ३,
७^०; या २, १३^०; -र्च्यः आपश्रौ
२१, ११, १०; हिश्रौ १६, ४,
३२; -र्च्ये बौश्रौ १३, २७ :
१-३; हिश्रौ.

अर्च्यमण^०- -णम् अत्र ६, ६०;
-णे विध ७८, १७.

अर्च्यम-दत्त-> अर्च्यमिक-, अर्च्य-
मिय-, अर्च्यमिल- पा ५, ३,
८४.

अर्च्यम-द्वैवत^०- -तम् अप ५७, २,
१.

अर्च्यमा(म-आ)दि-देव- -वान् अत्र
१, ११.

अर्च्यमो(म-उ)र्वश्य(शी-अ)स्ति^०-
-स्तिभ्यः शुप्रा २, ६०.

अर्च्यमःसत्र^०- -त्रम् आपश्रौ २३,
१२, ४; हिश्रौ १८, ४, २२.

अर्च्यमणोर्-अचन^०- -नम् आश्रौ १२,
६, २१.

अर्च्यश्वेत- अर्च्यश्वेत- द्र.

✓अर्च्य, पाधा. भ्वा. पर. हिंसायाम्।

†अर्च्यत्^०- -र्वतः आश्रौ १, ७, ८; ९,
९, ८; आपश्रौ; -र्वताम् शाश्रौ

१२, १४, १; -र्वते आश्रौ ५,
२०, ६; बौश्रौ १४, ८ : १४;
जैश्रौ ९ : २१; लाश्रौ ७, १२,
५^०; -र्वस्तु बौश्रौ ६, १५ : २४;
-र्वन्तः आश्रौ ९, ९, ८; शाश्रौ
१०, ११, ५; १६, १७, ६; वैश्रौ
१७, १४ : १; हिश्रौ १३, १,
५६; वैताश्रौ २७, ९; -र्वन्तम्
आश्रौ २, १९, २२; आपश्रौ २०,
३, १२; काश्रौ २०, २, १;
बौश्रौ १५, ६ : १; वाश्रौ ३, ४,
१, २४; हिश्रौ १४, १, ३३; शुभ्र
३, ४; तैप्रा ११, १७.

अर्च्यन्^०- पाउ ४, ११३; ५, ५४;
-र्वणः पा ६, ४, १२७; -र्च्यं वैन्
बौश्रौ १०, ४ : १३; वैताश्रौ
६, १^०; शुप्रा ३, १४५; -र्च्यं
आश्रौ ६, १४, १८XX; शाश्रौ;
निघ १, १४; या १०, ३१^०.

अर्च्य-प(द्>)दी- पाग ५, ४,
१३९.

अर्चा(र्व-अ)नयाना(न-आ)दि^०-
-दौ अशां २४, ४.

*अर्चा^०> †अर्चा(र्व-आ)क- के
अप ४८, ७३; ऋप्रा २, ४९;
निघ २, १६.

अर्चा(र्व-अ)च्,ञ्च्^०- -र्चाक् आश्रौ
२, ६, ९XX; शाश्रौ; या ५, १२;
१२, ४३^०; पाग १, १, ३७^०;
-र्चाक् आश्रौ ५, ५, १९^०XX;
शाश्रौ; या ६, १४; -र्चाचः

a) हस्वार्थे कन् प्र. । b) वैप १, परि. च द्र. । c) सकृत् आ^० इति पाठः? यनि. शोषः (तु. निघ.
मूको. च) । d) नाप. (मनुष्य-) । e) पाम. [तु. Kielhorn], पाका. आ^० इति । f) नाप.
(वैश्य-कन्या-) । g) षण्म् इति पाठः? यनि. शोषः । h) पामे. वैप २, ३खं. मंत्रा १, २, ३ टि.
द्र. । i) षन्ः इति पाठः? यनि. शोषः । j) सपा. अर्च्यमः <> हर्षक्षः इति पामे. । k) विप.
(सकृत्, नक्षत्र- [उत्तराफल्गुनी-]) । सास्यदेवतीयः जण् प्र. । l) विप. । वस. । m) द्रस. । n) नाप. ।
o) =क ९, ११, ३ । गीतविकारतया निर्देशः । p) द्रस. > वस. । जव- =जनस- (तु. ?संस्कृता) ।
q) वैप १ द्र. ।

आपश्रौ २, १६, ९; २४, ५, ८१;
बौश्रौ १४, १८ : १२^{१०}; १६,
९ : ०१^{११}; बौश्रौप्र; या १२, ४३;
-र्वाञ्चि कौस् ८९, १०१; -र्वाञ्चः
बौश्रौ १४, १३ : ६; १८ : १२;
माश्रौ; या ७, २४; -र्वाञ्चम्
शाश्रौ १६, ३, ३६; काश्रौ;
-र्वाञ्चि शाश्रौ १, ४, १५; काश्रौ
३, २, ८; वैताश्रौ ४२, १५; जैग
१, २२ : २५.

अर्वाञ्चि- -र्वाञ्चि आपश्रौ ५,
८, ६; बौश्रौ; -चिम् बौश्रौ
६, २६ : ३०; वैश्रौ १४, १० :
९; हिश्रौ ७, ७, ५; -च्याः कौस्
३६, १४; -च्ये बौश्रौ १८,
५२ : ३.

अर्वाक्-सामन्^{१२}- -सु आपश्रौ
२१, २१, ५; हिश्रौ १६, ७, ४;
-मानः बौश्रौ १६, ३६ : ११;
१७, २० : १०; २६, ८ : २;
-न्नः आपश्रौ २१, १५, २०;
-न्नाम् बौश्रौ २६, ८ : ११.

अर्वाग्-अर्थ- -र्थे या १, ३.

† १ अर्वाग्-वसु^{१३}- -सुः माश्रौ
१, ६, २, १७; -०१^{१४} आपश्रौ
६, १६, ११; २२, ११; भाश्रौ ६,
२, १; वाश्रौ १, ५, ४, ८; हिश्रौ ६,
६, २४^{१५}; -सोः^{१६} आपश्रौ ३, १८,
४; भाश्रौ ३, १४, ३; माश्रौ ५, २,
१५, ६; वाश्रौ १, १, ५, ८; हिश्रौ
२, ८, ५; कौस् ३, ७; १३७, ३९.

२ अर्वाग्-वसु^{१७}- -सुना आपश्रौ

६, १६, ११; भाश्रौ ६, २, २.
अर्वाञ्चिन- -नम् बौश्रौ १४,
१९ : १४; १६; भाश्रौ ७, १०,
९; वाश्रौ ४, ५५ : १०; वैताश्रौ
८, १४; आपमं १, १४, ६; कौस्
४६, ५०१; अप ३२, १, ३११;
बौध २, १, ५९; ३, ७, ३; अप्रा
१, २, १४१.

अर्वा-वत्^{१८}- -वतः माश्रौ ५, १, १०,
४८१.

† अर्वा-वसु^{१९}- -सोः^{२०} आश्रौ १, ३,
३१; शाश्रौ १, ६, ९; बौश्रौ ३,
२८ : ५.

अर्वावसु-परावसु^{२१}- -सु अप ५२,
९, ४.

✓* अर्श (= √ ऋश्) > अर्शस्^{२२}-

पाउ ४, १९६; पाग ५, २, १२७;
-र्शः बौश्रौ २, ५ : ३.

अर्शस- पा ५, २, १२७.

अर्शसान^{२३}- पाउ २, ८८.

† √ अर्ष (= √ ऋर्ष), अर्षन्ति आपश्रौ

१७, १८ : १^{२४}; अर्षन्तु^{२५} द्राश्रौ
९, १, १६; लाश्रौ ३, ५, १५;
अर्ष > र्षां निस् ६, १० : ७;
साअ १, ५०३; ऋप्रा ७, ३३;
उस् ८, ३०; शैशि ११४; अर्षत
आपश्रौ १७, १८, १.

अर्षण^{२६}- > ँर्षणिन्- -णिनः या ४,
१६.

अर्षत्- -र्षन् शैशि ११४१.

‡ अर्षु^{२७}- -र्षुः बौश्रौ १४, ४ : १०१.

✓ अर्ह् भ्वा. पर., चुरा. उभ. पूजायाम्,

अर्हति शाश्रौ १६, १६, ३१;
काश्रौ; या १, ८; २, २; पा ४, ४,
१३७; पावा ५, १, ६३; ७१; ७४;
अर्हन्ति कप्र २, २, ३-८; वाध;
अर्हसि सु १८, ४; बौग ४,
२, १३१; अप ४०, ६, १२; विध
१०, ११; ११, १२; १२, ८;
१३, ७; वृदे ६, ६२; अर्हथ विध
२०, ५३; अर्हामि वृदे ६, ६१;
८, १; ५; अर्हन्तु वागृ १७,
१७१.

अर्हयन्ति कागृ २४, २; मागृ १,
९, २; ५; वागृ ११, २; ४;
आर्हयत् वृदे ४, ७६; अर्हयेत्
बौश्रौ २१, १३ : ८; ९; आपगृ;
अर्हयेयुः शांगृ ३, १, १४; पागृ १,
३, २; गोगृ ४, १०, ४; २५.

१ अर्ह^{२८}- -र्हः शंघ १००; -र्हम् पा
५, १, ११७; -र्हात् पा, पावा ५,
१, १९; -र्हे पा ३, ३, १६९;
पावा ३, १, ९४; ९५; ५, १, १९.

० अर्ह- पा ३, २, १२.

अर्हण- -णम् आमिगृ २, ६, ५ :
२१; बौगृ २, ९, १८; -णाय
वागृ ११, २११; -णे बौश्रौ २१,
१३ : ८; २४, १२ : १६.

अर्हणीय, या- -यम् आमिगृ २,
४, १० : २०१; ६, ६ : ९; १०;
-यस्य कप्र ३, १०, १९; -याः
आपगृ १३, ७; बौगृ १, २, २६.

अर्हणीया(य-अ)र्थ^{२९}- -र्थान्
आमिगृ २, ६, ६ : ४.

a) ँर्वाञ्चः इति पाठः? यनि. शोधः। b) नाप. ([सोमयागस्य] गृह-विशेष-)। वस.। c) वैप
१. परि. च द्र.। d) पामे. वैप १ परि. अर्वाग्-वसो टि. द्र.। e) ँसोः इति पाठः? यनि. शोधः।
f) पामे. वैप १ वृहस्पतेः का २, ३, ३ टि. द्र.। g) नाप. (मन्त्र-विशेष-)। < १ अर्वाग्-वसु-।
h) नाप.। द्रस.। i) विशेषः वैप १, १७२३ f द्र.। j) पामे. वैप १ अर्षन्ति शौ ९, १, ९ टि. द्र.।
k) तु. SEY L ११९; वैतु. स्क. तु. आर्षण- इति, RNM. ऋषण- इति। l) कर्तारि वा भावे वा अच् प्र.।
m) कस.।

अहणा^१ - णा गोय ४, १०, ११^०.
अहत्- पा ३, २, १३३; पाग ५,
१, १२४; -हत्- आपध २, १०,
१; हिध २, ४, १; -हता माश्रौ
२, १, २, २९; -हताम् बौश्रौ
२४, १ : १४; लाश्रौ ८, ५, २;
वाय ११, २११; -हते आश्रौ ४,
१३, ७; ५, ५, १९१; बौश्रौ;
-हन् शाश्रौ ५, ९, १३; आपश्रौ
२४, १३, ३; बौश्रौ ९, ७ : २३;
माश्रौ ४, २, २४; लाश्रौ ८, ७,
२६; -हन्तम् आपध १, १३,
१४; हिध १, ४, २८; -हन्ता
आश्रौ ५, ५, ३१.

आहन्त्य- पावा ५, १, १२४.

अहन्त- पाउवृ ३, १२६.

अहयत्- यस्सु द्राय ४, ४, ६.

अहयितृ- यितुः द्राय ४, ४, २१.

अहयित्वा बौश्रौ २, ६ : ४ × ×;
कौय.

अहयिष्यत्- ण्यन्तः द्राश्रौ १, २,
१; गोय ४, १०, ३.

अहं^२ - (> आर्हायण- पा.) पाग ४,
१, ११०.

✓ अल (= ✓ अर), पाधा. भ्वा. पर.
भूषणपर्याप्तवारणेषु, ऋअलर्षि
पा ७, ४, ६५.

अल^१ - लम् आपश्रौ १, ९, १३;
१६, ३४, ४१; बौश्रौ १, २ : ८;
१६; १३, १४ : ८; १४, २६ :
२; ६; २७ : ४; १८, २६ :
२२; भाश्रौ १, ९, ६; वाधूश्रौ
४, १०३^१ : ६; वैश्रौ १३, ४ :
२; १४, ७ : ७; ९ : ८; १० :

६; १५, १३ : २; १८ : ७; १६,
२ : ११; १२ : ९; १८, २१ :
३११; हिश्रौ २, ७, ४३; ९, ४, १३;
११, ८, १५१; सु ८, ४; आम्रिग
३, ५, १ : ३; १२; बौपि १, १ :
३; ११; भाय १, ११ : ६; माय
१, ९, २४१^०; वाय १२, ११^०;
कप्र २, २, ९; वाध ८, ९; १०;
शंथ २४३; या २, ३; ९, १०;
तैप्रा ९, २२१; पा १, ४, ६४;
२, ३, १६; ३, ३, १५४; पाग
१, १, ३७; पावा २, ३, १६.
अल-कर्मन्-> ०र्मण्य- ण्यः^१
आम्रिग ३, ९, १ : २; २ : २.

अलकर्मण- पा ५, ४, ७;
-णः^१ बौश्रौ २०, २ : ९; २० :
१३; बौपि २, ५, १^०; ५^१.

अल-कृ/कृ पा १, ४, ६४; अल-
कुरुते वैताश्रौ १८, ३; कौस् १३,
१२; अलकरोति बौश्रौ १, १४ :
१५; १०, ३० : १; भाश्रौ;
अलंकुर्वते आपश्रौ १, ६, १२;
भाश्रौ १, ६, १६; वैश्रौ ३, ५ :
१४; अलंकुरुतः भाश्रौ ८, ५, १९;
अलंकुर्वन्ति शाश्रौ १८, २४, २२;
आपश्रौ; ऋअलंकुरु काश्रौ ९, ७,
४; आपश्रौ; अलमकुरुत वाधूश्रौ
४, ३० : १७; अलंकुर्वीत आपध
१, ३२, ६; हिध १, ८, ४८;
अलंकुर्यात् अप १८^१, १, ५;
अलंकुर्याताम् वैय ४, ८ : २.

अल-करण^१ - णम् बौश्रौ
१५, ३० : १०; जैश्रौ; पाय २, ६,
२६^{१०}; -णात् वैश्रौ १५, ५ : १;

हिश्रौ; -णानि वैश्रौ ३, ५ : १४;
-णे बौश्रौ २०, १६ : ११.

अलंकरण-काल- ले
आपश्रौ ६, २९, २; ८, २, १०.

अलंकरणीय- वम् बौय
१, २, ८; ६१.

अलंकरिष्यु- पा ३, २, १३६;
-ष्णुम् या ६, १९.

अलंकार- रः बौश्रौ २, ५:
१११ × ×; लाश्रौ; -रम् आपश्रौ
१४, १५, २; वाधूश्रौ; -रान् कप्र
३, ६, १५; अप; -रे कौस् २८,
१०; ३६, ३३; ४७, २३; पा ४,
३, ६५; -रेण बौश्रौ २, १२ :
२७ × ×; आम्रिग; -रैः बौश्रौ
१५, २९ : २९; ३०; बौय २,
१०, २-८; अप ७०, ३, ४.

अलंकुर्वत्- वन् माश्रौ १,
६, ४, १७.

अलंकुर्वाण- णौ आय १,
८, १०; आम्रिग १, ६, ३ : ४३;
हिग १, २३, १०.

अलं-कृत, ता- तः कौय १,
१८, २; अप; -तम् शाश्रौ १६, ३,
१८; १२, १७१; वाधूश्रौ; -तया
कौस् ४७, २४; -ता वैय ३, १ :
३; हिग; -ताः काश्रौ २०, १, १२;
बौश्रौ; या १०, २; -तान् आपश्रौ
८, १०, ९; वैश्रौ; -ताम् भाश्रौ ७,
१६, १४१; आम्रिग; -ताय विघ
८७, ६; -तै अप १, ३८, ४; ५;
-तेन अप १८, २४, १११;
१८^१, १, ११; माय १, २२, २;
-तेषु वैश्रौ १६, २ : ३; हिश्रौ;

अ) भावे युच् प्र. । b) पाभे. वैप १, १४५१ h द. । c) व्यप. (ऋषि-विशेष-) । व्यु. ? ।

d) वैप १ द. । e) सप्र. अलम् <> अलंकरणम् इति पाभे. । f) = अलंकर्मण- । स्वार्थिकः यत् प्र.
उसं. (पा ५, ४, ७) । g) सप्र. ०र्मण्यः <> ०र्मणः इति पाभे. । h) तु. B.; वैतु. ०लं कर्मणः इति पाठः ? ।
i) भाप., नाप. । उस. उप. भावकरणयोद् वयुद् प्र. ।

-तौ बौश्री २, १२: २७; १५,
२: १९; २४, १४: ९; वैश्री
१, ४: १५.
अलं-कृत्य शांश्री ४, १४, ५;
आपश्री.
अलं-खलु- -त्वो: पा ३, ४, १८.
अलं-गामिन्- -मी पा ५,
२, १५.
अलम्-अर्थ^०- -र्थेषु पा ३, ४,
६६.
अलमर्थ-त्व- -त्वात् पावा ३,
२, १३२.
अलम्-आतर्दन^०- -न: या ६, २.
अलं-पशु^०- -शो: काश्री १९,
१, ४.
अलं-पुख्य- > अलंपुखीण-
पा ५, ४, ७.
अलं-प्रजनन^०- -न: आश्री ९,
७, २२.
अल- ✓अल् द्र.
अलक, का- पाउभो २, २, ७; पावाग
७, ३, ४५.
१अ-लक्षण^०- -णम् बाध ६, ७; विध
७१, ११.
२अ-लक्ष(ण>)णा^०- -णा: काश्री
१७, १, २३; २१, ४, ९; -णायाम्,
-णे आगृ ४, ५, २.
अ-लक्षि(त>)ता- -ता काश्री ७,
६, १२.
अ-लक्ष्म(स>)णा^०- -णा: वैश्री

१८, ११: २५.
अ-लक्ष्मि, क्षमी^०- -क्षि: आपमं १,
१, ५१; बौगृ १, १, २६; -क्ष्मी:
बौश्री २, ५: १३१; कौगृ १,
१०, २१; शांगृ १, १६, ४१; कागृ
१८, २१; अप ४०, ५, ४; शंघ
१०१; विध ६४, ४१; या ६,
३०; -क्ष्मीम् शांश्री १४, ५१,
१२; वाश्री २, १, ६, ३; शांगृ ६,
५, ५१; गौपि १, ५, ६; अप २३,
१, १०; ४०, ५, २; बौध ३, ६,
६; विध ४८, १९; -क्ष्म्या शांश्री
१४, ५१, १; -क्ष्म्या: अप ३५,
२, ७.
अलक्ष्मी-प्र- -प्रम् ऋअ २, १०,
१५५; वृदे ८, ६०.
अलक्ष्मी-नाश(न>)नी- -नी अग्र
२०, १३७^b.
अलक्ष्मी-निर्णोद- -द: गोगृ ४, ६,
३; द्रागृ ४, १, २०; -दे द्रागृ
४, २, २०.
अलक्ष्म्य(क्ष्मी-अ)पनुद^०- -दम् वृदे
५, ११.
अलगई^०- -ई: सु २३, ५.
अ-लघु-त्व- -त्वात् पावा ७, २, २०.
अलं-करण- प्रभृ. ✓अल् द्र.
अ-लङ्घनीय- -यम् अप ११, २, ५.
†अलजक^०- > ज-चित्क^०- -चित्
आपशु २१, १; हिशु ६, ५९;
-चित: बौशु १३: १; -चितम्

बौश्री १७, २८: ११; हिश्री १२,
८, ५.
?अलजि^०- -जे: अप्रा ३, ४, ११.
अलति- पाउवृ ४, ६०.
अ-लब्ध- -ब्ध: निसू १०, ८: १५.
अलब्धो(ब्या-उ)पवास^m- -स:
आपध १, २४, १७^m; बौध २,
१, ३०; हिध १, ६, ६५.
अ-लब्ध्वा आपध १, २२, ६; हिध १,
६, ६^p.
अ-लभ्यमान, ना- -नासु अप ७२,
४, ७; -ने सुधप ८५: ५;
-नेषु अप्राय ५, १.
अ-लम्ब- > °म्ब-पयो-धर^p- -रे
विध १९, ९.
अलर्का- पाउभो २, २, ६.
✓अलर्य (<अलर्- l=✓अरर् <
✓ऋ), अलर्यति निध २, १४१.
अलर्यि ✓अल् द्र.
?अलला^० > °ला/भू > °ला-भव
(त>)न्ती^k- -न्ती: उस् ८,
१५१.
१अ-लवण^०- > आलवण्य- पा ५, १,
१२१.
२अ-लवण^०- -ण: हिध १, ६, ३४१;
-णम् वैगृ ६५: ११; हिगृ १, ८, १.
अ-लवणा(ण-आ)शान्- -शी लाश्री
१०, १८, ११.
१अ-लस^०- पा ५, १, १२१; पाग ५,
१, १२४; पाउभो २, ३, १७३:

a) विप. । बस. । b) विप. (मेघ-) । उस. उप. <आ/वृद् । c) विप. । अलं
पशुभ्य इति तस. । d) चस. (तु. MW.), यद्वा बस. उप. भाप. । e) तस. पू. =दुष्ट- । f) विप. ।
तस. । g) नाप. । तस. । h) लक्ष्मी^० इति पाठः? यनि. शोधः । i) विप. । उस. । j) व्यप.
(सर्प-विशेष-) । व्यु. ? । अल-गई- इति MW. । k) वैप १, परि. च द्र. । l) वैप १ द्र. ।
m) अलब्ध्यायां भिक्षायाम् इति कृत्वा सस. । n) अलब्धोप^० इति संस्कृतुः टि. । o) अलब्धोप^० इति
मैसू. । p) अलब्धे^० इति पाठः? यनि. शोधः । q) विप. (मेघ-) । कस. > उस. पू. =पतनोन्मुक्तो-
दक- । r) विप. । तस. > उस. उप. गिनिः प्र. (पा ३, २, ८०) । s) तस. उप. कर्तरि अच् प्र.
(वैतु. पाउभो. <✓अल्) ।

-साः माशि १६, ५; याशि २, १००.	७६:१४; -वैः वाधुश्रौ ३, ८३:४.	-काम् विध १, २२.
आलस्य- पा ५, १, १२१; १२४;	अलाबु-पात्र- -त्रे विध ९६, ७.	अलिक ^० - पाठभो २, २, १५.
-स्यम् अप ६७, ३, ४; -स्यात्	अलाबु-विल्व-विनाल ^० - -लानाम्	अलिगु ^० - (>आलिगव्य- पा.) पाग
माशि १६, १५.	बोध १, ६, ४१.	४, १, १०५.
आलस्य-मुखाहरण ^० - -णयोः	अलाबु-वीणा ^१ - -णा द्राश्रौ ११, २,	आलिगव्याय(न>)नी- पा ४,
पात्रा ३, २, ५.	२; लाश्रौ ४, २, १ ^m .	१, १८.
२अलस ^b -(>आलस-, आलसायन-	अलाबुवीणा-निर्घोष- -पः	अ-लिङ्ग, ङ्गा ^० - -ङ्गम् पात्रा १, १,
पा.) पाग ४, १, १००; १०४.	पाशि १८.	३८; -ङ्गाः या १२, ४०; -ङ्गे
†अलसाला ^c - -ला कौम् ५१, १५;	अलाबुवीणा-पिशीलवीणा ^० - -णे	मीम् ७, ४, ११.
अग्र ६, १६; अप्रा ३, ४, १.	द्राश्रौ ११, २, ५; लाश्रौ ४,	अ-लिङ्गग्रहण- -णे काश्रौ १५, २, १३.
‡अलहानात् ^d आमिग्य २, ५, १२ :	२, ४.	अ-लिङ्ग-विकार ^१ - -रे शुप्रा ४,
६.	अला(बु>)वू-> ^० बू-कट- पात्रा	१७३.
अलाण्डु ^e - -ण्डुन् कौम् २७, १४.	५, २, २९.	अ-लिङ्गिन्- -ङ्गी विध ९३, १३.
†अलावृण ^f - -णः अप ४८, १००;	अलावू-तिलो (ल-उ) मा ^० -	अलिन्द ^० - (>अलिन्दी- पा.) पाग
विध ४, ३; या ६, २०.	-माभ्यः पात्रा ५, २, २९.	४, १, ४१.
अलाबु ^g - -बु अप २३, ५, १; दंवि २,	अ-लाभ- -भे वौश्रौ १४, २९ :	अलीक ^c - पाठग ४, २५; पाग ३, १,
८†; -बुना कौम् २९, १३; ३२,	१८XX; वैश्रौ; -भेन विध ९६,	१८; ४, ३, ५४; ५, २, १३१;
२६; अशां २१, १†; -बुम् वैध	४२.	-कम् आश्रौ २, ५, १८; हिग्य १,
२, ८, ३ ^h ; -†बूनि आश्रौ ८, ३,	अलायत- (>०तमक्त ^m -पा.) पाग	१४, ७†.
२१; शाश्रौ १२, २३, ३;	४, २, ५४.	अलीक-निर्धन्ध ^v - -न्धः विध ३७,
वैताश्रौ ३२, २५.	१अलि->†अलि-कुव ^० - -वाः अप	३; -न्धे वाध २१, २८; विध
अलाबुवी ^१ - -वी लाश्रौ ४, २,	१ ^१ , १, ७५; ३६, ५; अअ २१,	५४, १४.
४?†; द्राश्रौ ११, २, ५.	९; अप्रा ३, ४, १.	√अलीकाय पा ३, १, १८.
अलाबु-क- -कम् आश्रौ ८, ३,	२अलि ^० -(>आलेय-पा.) पाग ४,	अलीकिन्- पा ५, २, १३१.
१७; शाश्रौ १२, १८, ११.	१, १३६.	अलीक्य- पा ४, ३, ५४.
अलाबु-कपिशीर्ष्णी ^० - -र्ष्ण्यः हिश्रौ	३अलि ^० - पाठ ४, १३९.	अ-लुप्त-क्रमा(म-अ)क्षर ^w - -रम्
१६, ६, २१.	अलि-दीप्ति-माला ^० - -ला अप २४,	विध ७, ११.
अलाबु-दर्व ^k - -र्वान् वाधुश्रौ ३,	६, ४.	अ-लुब्ध- -ब्धाः शोध २५१; -ब्धान्
	अलि-संघाल(घ-अलक>) का ^r -	विध ३, ७१; -ब्धैः गौध २८, ४९.

a) द्रस. । b) व्यप. (ऋषि-विशेष-) । व्यु. ? । c) वैप १, परि. च द्र. । d) पाठः? हलवाहन-> -नात् इति शोधः संभाव्येत । e) नाप. (ऋषि-विशेष- [तु. दारिलः]) । व्यु. ? । शिष्टं वैप १, ४३६ m द्र. । f) वैप १ द्र. । g) नाप. (तुम्बिका-, तत्पात्र- [अप. प्रभृ.], वादित्र- [हिश्रौ. प्रभृ.]) । व्यु. ? । वैप १ द्र. । पात्रे वा वादित्रे वाऽर्थे मयटः प्र. लुप् उरुं. (पा ४, ३, १६६) । h) वुम् इति C. । i) नाप. (अलाबु-वीणा-) । अलाबुवी-> नैप्र. यनि. । j) वीणे इति पाठश्चन्दस्तः? यनि. शोधः (तु. द्राश्रौ.) । k) षस. उप. =दर्वि- । l) मलो. कस. । m) णाम् इति पाठः? यनि. शोधः (तु. द्राश्रौ.) । n) नाप. (तदाख्यदेश-नास्तव्य-) । o) अर्थः व्यु. च? । p) नाप. (अमर-) । व्यु. ? । < √ऋ इति पाठ. । q) विप. (क्षितिपाल-लक्ष्मी-) । बस.>बस. । उप. =कमल-माला- । r) विप. । षस.>बस. । s) विप. । बस. । t) विप. । बस.>षस. । u) अर्थः व्यु. च? । =प्रधन- वा कोष्ठी- वेति पागम. । v) कस. । w) विप. । तस.>बस.>द्रस. ।

†अ-लुभि(त>)ता- -ता^१ आपश्चौ
१, ४, १२; भाश्चौ १, ४, १०;
वाश्चौ १, २, १, २४; वैश्चौ ३, ४ :
१५; हिश्चौ १, २, ४८^०.
†अ-लुभ्यत्- -भ्यतः अप्रा ३, ४, १.
अलुश^०- (> आलुशायनि^१- पा.)
पाग ४, २, ८०.
अ-लू(=ह)त्त- -क्षः आपश्चौ २२, १४,
२०.
अ-लून-पूर्व^०- -र्वस्य आपश्चौ ७, ६,
१; माश्चौ १, ७, ३, ३५.
अले^१ पाग १, ४, ५७.
†अ-लेप^१- -पाय अप ३६, ९, २०.
अ-लोक^१- > †अलोक-ता- -तायै
शाश्चौ २, ९, ७; ८; वाधूश्चौ २, ८ :
२.
१ अ-लोप- ३अ-द्र.
२ अ-लोप- -पः निस् २, ९ : २१;
६, ५ : २६; ७, १३; ९; १८; तैप्रा
११, २; -पम् लाश्चौ ६, १०, १५;
-पे पा ६, ३, ९४; पावा ७, ३,
५४; ८, २, ३८; शुप्रा १, १५९.
०अ-लोप- -पः पावा २, १, १.
अलोप-दर्शन^१- -नात् पावा ४, ३,
२२.
अलोप-संभव^१- -वात् ऋप्रा ११,
३३.
०अलोपा(प-अर्थ)- -र्थम् पावा २,
१, २.
अ-लोपभाव- -वात् ऋप्रा ११, २०.
अ-लोपवचन- -नात् लाश्चौ १०, ४, ४.
अ-लोभ- -भः आपध १, २३, ६;

हिध १, ६, १४.
अ-लोमक, का^१- पावा ७, ३, ४५;
-कौ वाध ३, ३९.
अ-लोमो(म-उ)षस^१- -पसी पा ६,
२, ११७.
अ-लो(मन् >)मनी^१- -मनी कप्र ३,
९, ४.
अ-लोलुप- -पम् अप ३, १, १३;
-पाः बौध १, १, ५; -पानाम्
आपध १, २०, ८; २, २९, १४;
हिध १, ६, २२.
अ-लोलुप्यमान- -नः गौध २, ४८.
अलोह^१- (> आलोहायन- पा.)
पाग ४, १, ९९.
अ-लोहित^१- -तः कौस् ९२, १६.
अ-लोहि(त>)नी- -नीम् आपश्चौ
७, २०, ४.
अ-लौकिक- -कः मीस् ७, २, १५;
३, २९.
अल्क->अल्क-समर^१- -रे माश्चौ १,
८, १, ५.
अल्प^१- पाउभो २, २, २०७; -ल्पः
वाधूश्चौ २, १३ : ५; अत्र ११,
३१; निघ ३, २१; -ल्पम् आश्चौ
९, ३, १३; शाश्चौ; या १, ११;
-ल्पम्-ल्पम् काश्चौ २४, १, १३;
-ल्पस्य या ३, २०; -ल्पाः वृदे
१, ८; -ल्पान् काश्चौ ९, ३, १८;
-ल्पानाम् कप्र ३, ९, १६; विध
२३, १८; काध २७७ : ११;
-ल्पानि वैध ३, ४, १; -ल्पे
अप ५०, ३, १; गौध १२, १५;

आशि ८, १७; पा ५, ३, ८५;
आज्यो १३, ४; -ल्पेषु विध
२३, ४६; गौध २३, ३२.
अल्प^० पा २, २, ३४; पावा २, २,
३६.
अल्प-क, का^१- -कम् शाश्चौ १३,
१२, ८; निघ ३, २१; -काम्
निस् २, ३ : २९.
अल्प-कण्ठ^१- -ण्ठः शैशि २१०;
याशि २, ८२.
अल्प-काल^१- -लम् विध ५, १४९^०.
अल्प-क्षी(र>)रा^१- -राः अप ५७,
१, ४.
अल्प-ग्रन्थ^१- -न्थम् मैत्र १;
आज्यो ९, १.
अल्प-तर, रा- -रः ऋप्रा १५, २९;
१८, ५८; तैप्रा २०, १२^२; -राः
वृदे १, ८.
अल्प-त्व- -त्वात् कप्र २, २, १२.
अल्प-धन^१- -नः शंध १४८; -नानि
बौध १, ५, ८४.
अल्प-धूम^१- -मः अप ७०^३, ३, १.
अल्प-निष्पत्ति^१- -त्तयः या २, २.
अल्प-प्रयोग^१- -गम् या २, १३;
-गाः या १, १४.
१अल्प-प्राण^१- -णः आशि ८, १७.
अल्पप्राण-महाप्राण^१-ता- -ता
आशि ८, १८.
२अल्प-प्राण^१- -णाः आशि ४,
३; ५.
अल्पप्राण-ता- -ता आशि ८,
२६.

a) पाभे. वैप १ परि. अयुपिता मै १, १, २ टि. द्र. । b) ०तः इति पाठः? यनि. शोचः (तु. आपश्चौ. प्रभु.) ।
c) अर्थः व्यु. च? । d) =देश-विशेष-? । e) विप. । तस. उप. सुस्पृषीयः समासः द्र. । f) =अरे । अम्ब. ।
g) विप. । बस. । h) षस. । i) बस > द्रस. । j) व्यप. (ऋषि-विशेष-) । व्यु. ? । k) षस. पूष. =तस्मूल-,
उप. =संधि- । l) वैप १, परि. च द्र. । m) वैप १ द्र. । इत्त्वाऽभावः उंसं. (पावा ७, ३, ४५) । n) कस. वा.
क्रिवि. । o) अल्पकाणम्, अल्पकानाम् (तु. जीसं.) इति मूको. ? । p) नाप. (पारिभाषिक-संज्ञा- [प्रयत्न-विशेष-]) ।
कस. । q) द्रस. । r) विप. > नाप. । बस. ।

१ अल्प-फल^a - > ल-द् -द्: अय
 ६३, २, ७.
 अल्पफलो(ल-उ)दय^b - यम्
 आज्यो ५, ११.
 २ अल्प-फ(ल>)ला^b - ला माय
 २, १४, २१.
 अल्प-वीर्य^b - र्या: शंघ १३.
 अल्प-व्याहारिन्^c - री लाश्रौ १,
 ८, ७.
 अल्प-शस(:) आपश्रौ ३, १, ५;
 गौध; या ७, ३; पा २, १, ३८;
 पावा ६, ३, ३५.
 अल्प-श्रुत^b - तात् वाध २७, ६.
 अल्प-संभार^b - > र-तम- -म:
 गोय ४, १, १८.
 अल्प-सार^b - राणाम् विध ५२, ७.
 अल्प-सोम^b - -म: वैश्रौ २१, ४:
 ४.
 अल्प-स्तव^b - वम् ऋअ २, १,
 १६४; वृदे ४, ४३.
 अल्प-स्व^b - स्व: वैताश्रौ २४,
 २०.
 अल्प-स्वर^b - > र-तर- -रम् भास्
 ३, ८.
 अल्पां(ल्प-अं)शु^b - शून् काश्रौ १,
 ४, १८.
 अल्पा(ल्प-आ)ख्या - ख्यायाम् पा
 ४, १, ५१; ५, ४, १३६; पावा ४,
 १, ४८.
 अल्पा(ल्प-आ)युस्^b - यु: आमिस्

२, ७, ६: ३; वाध ६, ६; आज्यो
 १३, ५; -युष: शंघ १३.
 अल्पा(प-अ)ल्प^d - ल्पम् मैअ ३०.
 अल्पा(ल्प-आ)शिन्^c - > शि-दीर्घ-
 काम^b - मा: अय ६८, १, २८.
 अल्पिष्ठ - ष्टम् वैश्रौ ५, ४: १२;
 हिश्रौ १, ७, ४५.
 अल्पो(अ-उ)दक^e - -का: शंघ
 ३७४; -के शंघ ९९; १४५.
 अल्पीय^f - -यम् मैअ ३१.
 अल्पीयस् - -य: काश्रौ २, ७, १०;
 आपश्रौ २, ७, ७; भाश्रौ २, ७,
 ८; माश्रौ २, ३, ३, ६; द्राश्रौ ५,
 ४, २५; लाश्रौ २, ८, २५; -यस:
 वीध ४, १, २; २, २; पावा २,
 २, ३४; -यस्मे निस् ८, ७: २७;
 -य:सु द्राश्रौ ५, १, २८; लाश्रौ
 २, ५, २२; -यांस: आपश्रौ २४,
 ४, १२; हिश्रौ १, ७, ४९;
 -यांसम् आपश्रौ १२, ९, ७;
 -यांसि आपश्रौ २४, ४, १३;
 -यान् लाश्रौ ८, ५, १०; १०,
 २, ८.
 अल्पीयो-म(ध्य>)ध्या^b - ध्या
 उनिस् २: ७.
 अल्पीयो(यस्-अ)र्थ^b - तर- -रम्
 या ४, २५.

✓अव्^g पाधा. भ्ना. पर. रक्षणगतिकान्ति-
 प्रम्, ऋवति शाश्रौ १५, १९, १;
 आपश्रौ १०, १२, ११^h; वीश्रौ

२८, ९: २२^h; वाधूश्रौ; हिग् १,
 १७, ४^h; निघ २, १४^h; अवन्ति
 वाधूश्रौ ४, २८: २; या ३, ९;
 अवसि या १२, १७^h; ऋवथ
 > था शाश्रौ ६, १०, ६; ऋपा
 ८, ३०; ऋवान् आश्रौ १, ७,
 ७; शाश्रौ १, १२, १; ३; ऋवतु
 आश्रौ ३, १३, १५^h; ४, १२,
 २^h × ×; शाश्रौ; ऋवताम्
 आपश्रौ ३, ५, ९ × ×; भाश्रौ; कौस्
 ९०, ११; अय १८, १, ८^h; ऋवन्तु
 आश्रौ १, ५, ३८ × ×; आपश्रौ ७,
 १७, १^m; वीश्रौ ४, ६: ३६^m;
 ११, ४: २०^m; भाश्रौ ७, १३,
 ४^m; हिश्रौ ४, ३, ५४^m; पाय १,
 ५, १०^h; या ११, १८^h;
 १२, ३३; ४५; ऋव, > वा
 आश्रौ ४, १३, ७; शाश्रौ; ऋवधि^o
 भाश्रौ ५, १८, १; हिश्रौ ३, ६, ५;
 ऋवतात् आपश्रौ ७, ३, १४^h;
 वीश्रौ ४, २: ८; ९; भाश्रौ ७, ३,
 १^h; माश्रौ १, ७, ३, १५^h; हिश्रौ
 ४, १, ४३^h; अवतम् अप्राय ६,
 ९; ऋवत, > ता आश्रौ २, १६,
 १७; शाश्रौ; आपश्रौ ५, २६, ५^o;
 कौस् ३३, ८^h; आवत् वाधूश्रौ
 ४, २६: २; ऋवत: वीश्रौ ७,
 ४: ३^h; आपमं २, १५, १९^h;
 आवतम् आपश्रौ १९, २,
 १९^h ऋ.

a) कस. । b) विप. । बस. । c) विप. । उस. । d) पंस. । e) विप., नाप. (नरक-विशेष-) ।
 बस. । f) = अल्पीयस्- । अतिशयने र्थः प्र. उ. जं. (पा ५, ३, ५७) । g) या १, १७: २०, २० परामृष्टः द्र. ।
 h) पाभे. वैप १ परि. अधिगम्यते शौ ७, १०६, १ टि. द्र. । i) अवते इति लघुशास्त्रीयः मूको. । j) पाठः ?
 आवतु (< आव्/अव्) इति शोधः (तु. सपा. मै १, ४, ४ प्रम्. आगच्छतु इति) । k) सकृत् सपा. तै ४, ४, १२, ४
 अवन्तु इति पाभे. । l) °तात् इति पाठः ? यनि. शोधः (तु. कौस्.) । m) पाभे. वैप १ समासजन्तु मै ४, २, १०
 टि. द्र. । n) पाभे. वैप १ परि. अवत तै ३, ४, ५, १ टि. द्र. । o) पाभे. वैप १ परि. अव मा १८, ५५ टि. द्र. ।
 p) पाभे. वैप १ प्रतिरता पै १३, १३, ७ टि. द्र. । q) वैप १, ४३८ h, i द्र. । r) सकृत् आवताम् इति शोधः
 (तु. वैप १ परि. ऋ १०, १३१, ५ आवधुः इति पाभे.) ।

अविष्टि^० आश्रौ ६, ३, ११;
 †अविषः^० शांश्रौ ३, ७, ५; काश्रौ
 ५, १३, ३; अविष्टन>ना ऋप्रा
 ७, ३३†; †अव्यात् आश्रौ
 २, ११, १२; शांश्रौ; पा ६, १,
 ११६; आवीत् मागृ १, ४, ८^३;
 वागृ ८, ७^३; अवीः ऋप्रा २,
 ४३†.

अवत्-वतः जैश्रौ ६ : ३†.

†अवन्ती-न्तीः आपश्रौ २०,
 १७, १३; बौश्रौ १५, २९ : २४^३;
 हिश्रौ १४, ४^३.

‡अवन-नात् या ५, ३; -नाय
 या २, २४; २५; ६, ४; १०, ३३;
 -नैः या २, २५; १२, २१.

अवनि, नी^०-पाउ २, १०२; -†नयः
 आश्रौ ३, ७, ९; अप ४८,
 ७६^३; निघ १, १३; २, ५; या
 ३, १७; -निः अप २४, ६, ३;
 ४८, ७२†; निघ १, १†; -निम्
 जैश्रौका १७६; -नी वैगृ २,
 १ : ५†; -नीम् वैगृ ३, १५ : ७;
 विघ १, ४४.

‡अवन्ति-पाउभो २, १, १९८.

†‡अवस्^०-वः आश्रौ ८, १०, २;
 शांश्रौ १२, २५, ३; आपश्रौ;
 निघ २, ७५; -वसा आश्रौ १, ६,
 १××; शांश्रौ; -वसे आश्रौ २,
 १, २९××; शांश्रौ; या २,
 २४७; १०, ३३७; १४, ३२;
 -वसि ऋप्रा २, ४०; -वोभिः

आश्रौ ८, १४, १८; आपश्रौ
 १३, १८, १; माश्रौ २, ५, ४, १२.

√अवस्य>†अवस्यु-पा ६,
 १, ११६; -स्यवः वैताश्रौ ३२, ९;
 ऋप्रा २, ४५; -स्युः शांश्रौ ६, १२,
 १९^३; बौश्रौ ६, २९ : १२^३;
 १०, ५४ : १९^३; वैश्रौ १४, १२ :
 १२^३; हिश्रौ ७, ७, ३३^३; जैश्रौ
 १३ : १६^३; द्राश्रौ ४, २, ८^३;
 लाश्रौ २, २, १८^३; आपमं;
 या २, २५७.

†अवस्यु-वा(त>)ता^१-

-ता आश्रौ ४, १२, २.

†अवस-वत्-वान् आपमं २,
 १७, २४.

अवस्वन्त-नामन्^१-स्त्रः अग्र
 ३, २६.

अवस^०-पाउ ३, ११७; -सम्,
 -†साय या १, १७; -†सेन
 आश्रौ २, ९, १०; बौश्रौ ३, १२ :
 २२; ५, १७ : ६^३; भाश्रौ ८,
 २२, ५^३; माश्रौ १, ६, ४, २५;
 वाश्रौ १, ५, ५, ८; हिश्रौ ५, ५,
 २१^३; द्राश्रौ १३, ३, ९^३; लाश्रौ
 ५, ३, १२^३ कौगृ ३, ५, १^३; शांश्रु
 ३, ८, ३^३; पागृ ३, १, ४^३; जैगृ
 १, २४ : ५; कौस् ७४, १९.

अवसे^१

‡अवि^०-विः अग्र १०, ११†.

अवित्-वतः ऋप्रा १, १०२†;
 -†ता आश्रौ ७, १२, ९;

शांश्रौ; या १०, २४; -तारः
 या १२, ४०; -†तारम् आश्रौ
 २, १०, ४; ६, ९, ५; बौश्रौ
 २७, ६ : ७.

अवित्री-त्री वाधूश्रौ ४, ३३ : ३.
 ‡‡अविष^०-पाउ १, ४५.

√अविष्य>†अविष्यत्-
 -प्यन् बौश्रौ १०, ४६ : ४९;
 हिश्रौ १२, १, ४४; अप ४८, १५;
 निघ २, ८; ऋप्रा २, ४३; तैप्रा
 ११, १७.

†अविष्यु-प्यवे मागृ २,
 १६, ३.

अविष्यव^१->व-ना-
 मन्^०-स्त्रः अग्र ३, २६.

ऊति^०-पा ३, ३, १७; -तयः या १४,
 ३७†; -†तये आश्रौ २, १०,
 २१××; ८, ११, ४^३; शांश्रौ २,
 ५, ३^३××; १०, ९, १७^३; आपश्रौ
 ३, १२, १^३××; बौश्रौ; भाश्रौ
 ३, ११, १^३; हिश्रौ २, ६, १२^३;
 वैताश्रौ २९, ५^३; अप्राय २,
 ३^३; अप ३७, २०, १^३; अअ ६,
 ३५^३; या ४, १७; ५, ३; ६, १७;
 १४, ३२; -तिः आश्रौ ७, ६, ४†;
 शांश्रौ १०, ३, ९†. ११, १०, ८;
 निघ ४, २†; या २, २; ५, ३७; -
 †तिभिः आश्रौ ७, ८, १; ११,
 २२; शांश्रौ; आपश्रौ १४, २९,
 १^३; १७, ७, ८^३; -†ती आश्रौ
 २, १९, २२××; शांश्रौ; या १२,

- a) वैप १ ?विष्टि टि. द. । b) वैप १, ४३९ d द. । c) वैप १, परि. च द. । d) पामे.
 वैप १ परि. तै १, ३, ३, १ टि. द. । e) विप. । वस. । f) विप. । वस. पूष. = अवस्वन्तः (शो ३,
 २६, ६) । g) पामे. वैप १ परि. अवसुम् मा ३, ६१ टि. द. । h) वशेन [कौगृ.], जवसेन [शांश्रु.],
 अवशेन [पागृ.] इति पाठाः ? यनि. शोधः (तु. तै ५, ७, २, ४; Old. च) । i) वैप १ द. । j) स्वार्थे अण्
 प्र. । k) पामे. वैप १ परि. ऊतये मा १८, ७२ टि. द. । l) पामे. वैप १ परि. कौ १,
 २७४ टि. द. । m) पामे. वैप १ परि. अंशुभिः ऋ १, ९१, १७ टि. द. । n) पामे. वैप १ परि.
 ऊतये मा २७, ४१ टि. द. ।

२१०; -कृती: आपथ्रौ ५, १, ७^३;
 वैश्रौ १, ७: २; -कृत्या आथ्रौ
 २, १०, १२x; शांथ्रौ; आपथ्रौ
 ८, १, ४^०; वौश्रौ^० १३, ८: ३;
 १०; १२; १७; ९: ४; ६; ९; १२;
 ४३: ४; २८, २: ३५; २९, ६:
 १६; माथ्रौ^० ५, १, १, २९; ५,
 २४; वैश्रौ^० ८, ३: ६; २१, १७: ८;
 हिथ्रौ २२, २, १९^०; या १२, २, १.
 ऊम^०- पाउ १, १४४; -कृमा: शांथ्रौ
 ६, १०, ६; आपथ्रौ २१, २२, ३;
 वाथ्रौ ३, २, ५, २०; ५७; हिथ्रौ
 १६, ७, १५; या १४, २४;
 -कृमै: शांथ्रौ ७, ५, २२; वैताथ्रौ
 २०, ७.
 कृओम^०- ०मास: शांथ्रौ ७, १०,
 १४; १०, ९, १६; काथ्रौ ९,
 १४, १; आपथ्रौ १२, २८, ४;
 वौथ्रौ ७, १७: २१; माथ्रौ २,
 ४, २, ३५; वैश्रौ १५, ३६: १०;
 हिथ्रौ ८, ८, ३६; गौपि २, ३, ५;
 शुभ्र १, ४७५; निघ ४, ३; या
 ६, ९; १२, ४०^०.
 ✓ओम् > ओम्या^०- म्यायाम्
 शांथ्रौ १, ६, २^१.
 ओमन्^०- > ओमन्-व (त >)
 ती^०- त्ती आथ्रौ १, ९, १;
 ५, ३, ९; शांथ्रौ १, १४, ३;

तैप्रा ४, २९.
 रकृओमन्^०- मना निघ ४, ३;
 या ६, ४०^०.
 अव^१ या १, ३; ऋप्रा १२, २०; १५,
 १७; शुप्रा ६, २४; तैप्रा १,
 १७; ऋन ४, ५, ९; पाग १, ४,
 ५७; ५८.
 भवा(व-आ)दि- द्य: पाग २, २,
 १८.
 ?अव^०- वेण ऋप्रा ५, ६०^१.
 अ-चंद्र्य^०-त्व- त्वात् पावा ४, १,
 १४७.
 ?अव...अदास्थ^१ आपमं १, ४, ४;
 वौगृ १, ४, १७.
 अव-कट- पा ५, २, ३०.
 अव-कर- अत्र ✓कृ द्र.
 अव-कर्ण-प्रावृत्^१- ता: आपथ्रौ
 १३, १५, ५.
 अव-कर्तन- अत्र ✓कृत् (छिदने) द्र.
 अव-कल्पित-, °तिन्- अव
 ✓कल्प द्र.
 अवका^०- पाउना ५, ४४^६; पावाग
 ७, ३, ४५; -कृत्या वौथ्रौ
 १०, ४८: ३४; माथ्रौ ४,
 ४, २०^१; ६, २, ४, ११^२;
 वाथ्रौ २, २, ३, १७; कौस् ४०,
 ५; ५२, ७; -का आपथ्रौ
 १७, १२, ७^३; वैश्रौ १९, ६:

५३^३; -का: काथ्रौ १७, ९, ६;
 वौथ्रौ; -काभि: काथ्रौ २१, ४,
 १८; आपथ्रौ; -काम् आपथ्रौ १६,
 २४, १०; वौथ्रौ १०, ३२: ३;
 ३८: २; ४०: ३; ४; ४१: १३;
 ४४: ५; ४७: १६; ४८: ३३;
 माथ्रौ ४, ४, १५; वाथ्रौ २, २, ३,
 १७; ३, ४, ५, ११^१; वैश्रौ;
 -कासु काथ्रौ १७, ४, २८;
 आपथ्रौ १६, २४, ११; माथ्रौ ६,
 १, ८, ७; वैश्रौ १८, १७: ४५.
 अवका-भार- रम् वौथ्रौ ९, १३:
 २; वौथ्रौ १०, ५०: ५; १२;
 -रेण वौथ्रौ ९, १६: २४; १०,
 ३३: ३; ५१: २; वैश्रौ १८,
 १७: ४८.
 अवका-मि (थ >) श्रा- श्राभि:
 वौथ्रौ १६, ४: ७.
 अवका-वल^०- लम् भाथ्रौ १०,
 ३, २१^०.
 अवका(का-अ)वा(स्त >)स्ता^०-
 -स्ताभि: आपथ्रौ २१, ७, ९;
 हिथ्रौ १६, ३, २९.
 अवका(का-आ)विल^०- ले वैश्रौ
 १२, ६: १०^०.
 अवकि(न् >)नी- नीपु आपथ्रौ
 १०, ५, १५^०; -न्य: भागृ ३,
 ८: १४^०.

a) उती: इति पाठ: ? यनि. शोध: (तु. सपा. तैप्रा १, २, १, २) । b) पृ ३८० k टि. द्र. । c) वैप १, परि. च द्र. d) पाभे. वैप २, ३खं. ऊमै: ऐत्रा ७, ३४ टि. द्र. । e) पाभे. वैप १ परि. ओमना ऋ ७, ६९, ४ टि. द्र. । f) निपात: । g) व्यु.? (तु. वैप १, ४३९ j) । h) तस. । i) पाठ: ? पाभे. शोधश्च वैप १ परि. अत्र...असृक्षत शौ १४, २, ५२ टि. द्र. । j) विप. (ऋत्विज्-) । कस. पूप. अव = अत्र = नञ् इति कृत्वा तस. वा. किवि. (तु. सा [तां ८, ७, ७] अरुणया इति आथ्रौ. पाठं मन्वानः, वैश्रौ १६, १८: १२ अकणं वा प्रोणुःश्च इति पाभे. च) । k) वैतु. पाउभो २, २, ७ अमक- इति । l) पाभे. वैप १ परि. अत्रकया मा १७, ४ टि. द्र. । m) पाठ: ? काम् इति शोध: (तु. सप्र. वाथ्रौ २, २, ३, १७; सा [तै. पृ ३२२३]; U. [ZDMG ५७, ७४३]) । n) वैप १, ४४७ i द्र. । o) विप. (तीर्थ-) । मत्वर्थीय: वलच् प्र. । p) सप्र. कावलम् <> काविले <> °किनीपु <> °किन्य: इति पाभे. । q) विप. । बस. उप. <अवा(व ✓अ)स [क्षेपणे] । r) विप. । तृस. उप. = कल्पित- ।

अवको(का-उ)त्व^० - ल्वाः अश्र ८, ७^१.
 अव/काङ्क्ष, अवकाङ्क्षतु भाग २, ३२ : १३.
 अव-कार^० - रे शौच ४, ३७.
 अव/काश, अवचाकशत् अश्र ४८, २^१.
 अव-काश- शः बौश्रौ २४, १६ : १२; १३; लाश्रौ ९, ३, ११; आमिगृ ३, ३, १ : १३; पावा २, ३, १; -शम् आपश्रौ ११, ७, ८; १३, १४, ११^१; १४, १, ७^१; काठश्रौ १५४; बौश्रौ ६, ११४ : २०; ८, १४ : ३०^१; २६, २७ : ३; माश्रौ २, ५, २, १९; ^१वैश्रौ १६, १८ : २; हिश्रौ ४, १, ४१; ९, ४, २३^१; १०, १, ३५; १६, ६, ३८^०; आमिगृ ३, ५, ५ : १; बौपि १, ४ : १; हिपि १ : ८; १० : ६; २३ : ८; -शाः शुश्र ४, ८१^०; -शान् काश्रौ ९, ७, ८^०; -शानाम् शाश्रौ ५, ९, २७^०; -शे माश्रौ १, १, २, ७; ७, ३, १३; ६, ११; २, २, १, ५२; ३, १३; ६, १, ५, २९; मागृ २, १, ५; -शेन गोश्र १, ९, १४; -शेभ्यः बौश्रौ २५, १८ : १५^०; -शैः^० बौश्रौ ७, ८ : २४; ८, २ : २६; ११ : १४; ९, ८ : १७; १४, ८ : १८; २५, १८ : १५; माश्रौ २, ३, ७, १.
 ✓अवकाशि^०, अवकाशयेत्

काश्रौ ९, ७, १५.
 अव-काश्य^१ - श्यः काश्रौ १२, ५, १३; -श्यस्य काश्रौ २६, ७, ५२.
 अवकि(न् >)नी- अश्रका- द्र.
 अव-कीर्य अव/कृ द्र.
 अव-कुटार- पा ५, २, ३०.
 अव/कुण्ठ > ^०कुण्ठय कौश्र ३, ११, २१.
 अव/कुत्स् > ^०कुत्सित^० - ते या १, ४.
 अव/कूलि (<कूल-) > ^०कूलन^० - नम् बौध १, ६, ३३.
 अव/कृ, ?अवकृणोत्^० मागृ १, ८, ११^१.
 अव/कृत् (छेदने), अवकृन्तति काश्रौ ७, ७, ४.
 अव-कर्तन^१ - ने वाश्रौ २, १, ७, ५.
 अवकर्तन-तस् (:) वाश्रौ २, १, ७, ६.
 अव-कृत्य काश्रौ ७, ९, ९; २५, १०, ७; मागृ १, २२, १४; हिपि ३ : १३; गोश्र ४, २, १२.
 अव/कृप्, अवकर्षति काश्रौ १८, २, १०.
 अव-कृष्ट^१ - ष्टानाम् शंघ ४५१^६; -ष्टे काश्रौ २, ८, १३; २६, ७, १८.
 अव-कृत्य आश्रौ १, २, १XX; काठश्रौ.
 अव/कृ, अवकिरति बौश्रौ ९, १४ : १४; कौस् ३०, १८; ४१,

२५; ५१, १८; ५२, १४; अव-किरेत् आपश्रौ १४, २९, ३; वैश्रौ २१, १ : ८; हिश्रौ १५, ७, १६; आगृ ४, ५, ८; गो १, ११.
 अव-कर^१ - रः गौध २३, १३; -रात् गौध २०, ४.
 अव-किरत् - रन् वैश्रौ २०, ३२ : ७; कौस् २६, २; -रन्तः कौस् ८२, ३.
 अव-कीर्ण^० - पाग ५, २, ८८; -र्णः पागृ ३, १२, ९^१; आमिगृ २, ७, ५ : ५^१; वैगृ ६, ८ : १२; ९ : ५; शंघ ३९९; ४००; ४०१^१; ४०८; बौध २, १, ३३^१; ४, २, १०^१; गौध २५, ४^१; -र्णम् वाधूश्रौ ३, १०६ : ४.
 अवकीर्ण-प्रायश्चित्त- -त्तम् वैगृ ६, ९ : १^०; १८ : ३.
 अवकीर्णिन् - पा ५, २, ८८; -र्णिन् वाश्रौ ३, २, ५, ३१; दाश्रौ ११, ३, ९; लाश्रौ ४, ३, १०; -र्णिनः काश्रौ १, १, १३; -र्णिनम् आश्रौ १२, ८, २५; -र्णिने कौस् ४६, १९; -र्णि आमिगृ २, ७, ५; १; शंघ ३७८^१; आपध १, २६, ८; बौध २, १, २९^१; ७, २४; ४, २, १०; विध ४५, २९; हिध १, ७, १९; गौध २३, १७; २५, १.
 अवकीर्णि-ता- -ता सुधप ८६ : २.
 अवकीर्णि-पशु- -शुः मीस्

a) वैप १ द्र. । b) विप. । बस. । c) सपा. आपश्रौ २१, १९, १७ अध्वानम् इति पाभे. । d) =मन्त्र-विशेष- । e) अवकाशान् (मन्त्रान्) वाचयतीत्यर्थे नाधा. । f) विप. । तदर्हतीयः यत् प्र. । g) भाप. । h) पाठः ? । पाभे. वैप १ परि. अकृणोः ऋ ८, ९१, ७ टि. द्र. । i) नाप. (पश्वङ्ग-विशेष-). । गस. उप. अधिकरणे व्युद् प्र. । j) विप. (काश्रौ.), नाप. (प्रतिलोम-जाति- [शंघ.]) । k) सप्र. यास्मृ ३, २६२ अवकृष्टान् इति पाभे. । l) नाप. (मल-स्थान-, अश्वकीर्षि-व्रत-) । कर्मण्यधिकरणे वा अप् प्र. । m) विप. (लखलित-रेतस्-] ब्रह्म-चारिन्-), भाप. (पाग.) । n) सपा. अवकीर्णप्रा^० <> अवकीर्णिप्रा^० इति पाभे. ।

६,८,२४^६.

अवकीर्णि-प्रायश्चित्त- -त्तम्

पाठ ३, १२, १७.

अवकीर्णि-व्रत- -तम् काण्ड

१, ३२; बौध १, २, ५७; विध २८, ५२.

अव-कीर्यं आपश्रौ ७, ४, ५XX; वैश्रौ.

अप/कृत्प, अवकल्पते आपश्रौ ८,

८, २३; वाधुश्रौ ३, ४१ : २४;

द्राश्रौ २, ४, ५; लाश्रौ १, ८, ४;

अवकल्पेत वाधुश्रौ ३, ८९ : ४.

अवकल्पयां/कृ>°यांचक्रुः बौश्रौ

१८, १५ : १६.

अव-कल्पित- पाग २, १, ५९; ५,

२, ८८.

अवकल्पितिन्- पा ५, २, ८८.

अव-केश^० -शः अअ ६, ३०^१.

अव-क्र, क्रा- -ःक्रः आश्रौ ३, १,

१७^१; आपश्रौ १०, २७, २^१;

बौश्रौ ३, ३१ : १०^१; माश्रौ ५,

२, ८, १६^१; वैश्रौ १०, ११ : १^१;

१२, १९ : १३^१; वैग २, ४ :

२६; कौस् ५६, ३^१; -क्रम् वैध

२, ३, २; -क्रा अप २६, ४, ३.

अव/क्रम, अवक्रामति हिश्रौ २१,

१, ४; अवक्रामतः वैश्रौ १४, ५ :

१९; हिश्रौ ७, ५, ८; ऋवक्रा-

मामि बौश्रौ ३, २७ : ६; हिश्रौ

२१, १, १; अवक्रामेत् बौश्रौ

२५, ३० : २; वाधुश्रौ २, २१ : २;

अवक्रामेयुः हिग २, १६, ८.

अवक्रमुः पा ६, १, ११६; ऋव-

क्रमिषम् आपश्रौ २, १३, ७;

बौश्रौ.

अव-क्रमयत्- -यन् काश्रौ १०, ८,

२३.

अव-क्रमिन्- -मी शैशि १०२.

अव-क्रम्य बौश्रौ १, २१ : ३० XX;

हिश्रौ.

अव-क्रामत्- -मन् बौश्रौ १०, २ :

१०^१; -मन्तम् बौश्रौ १०,

२८ : १.

अव-क्रामम् आपश्रौ ६, १०, ५;

हिश्रौ २, २, २९.

अव/क्री पा १, ३, १८.

अव-क्रीय- -यः पा ४, ४, ५०.

अव-क्रीत- -तः बौश्रौ २४, १३ : ३.

अव-क्रीय शाश्रौ १६, १०, ९; १८,

१८.

अव/क्लिद्>°क्लिन्न->°न्न-पक्-

पाग २, २, ३१.

अव/क्वशा, अवक्वशेषम् माश्रौ २, ४,

१, ३४^१.

अव/क्षर्, अवक्षारयते काण्ड २५, ९;

अवक्षारयति आण्ड १, २०, ४.

?अवक्षायम् आपश्रौ १०, २७, ६;

माश्रौ १०, १८, १३.

अव/क्षि, क्षी (हिसायाम्), अवक्षि

णुयात् द्राश्रौ ११, ३, १४; लाश्रौ

४, ३, १५.

अव-क्षिण(त्>)ती- -तीम् कौस्

६१, २६.

अव-क्षीण- -णान् कौस् ६१, २७.

अव/क्षिप्>°क्षिप्य कौस् ३०, १२;

५२, १४.

अव-क्षेप- -पे पावा ६, ३, ७२.

अव-क्षेपण- -णे पा ५, ३, ९५; ६,

२, १९५.

अव/क्षु>°क्षुत- -तम् विध २३,

३८; ५१, १८; ८१, ३.

अव/क्षै>°क्षान्- -णानि आपश्रौ

६, २८, ८; ९, ११; बौश्रौ; माश्रौ

९, ११, ७^१; -णेभ्यः आपश्रौ ९,

९, ११; माश्रौ ९, १३, ४; वैश्रौ

२०, २ : १; हिश्रौ १५, ३,

११^२.

अव-क्षाम- -मेभ्यः आश्रौ ३, १२,

२१.

अव/ख्या, ऋवख्यत् बौश्रौ ७

१३ : ४; अव...ख्यत कौग १,

१, १; शाण्ड १, ४, २.

अवख्यापयति बौश्रौ ११, ७ :

३५.

?अवख्याया अप्राय ५, ३.

अव/गच्छ,गम्, ऋवगच्छति बौश्रौ

१३, २१ : १२XX; हिश्रौ; अव...

गच्छति शाश्रौ १४, ५०, १^१;

अवगच्छतु बौश्रौ १७, १४ : ४;

हिश्रौ ९, ८, ३२; ऋवगच्छेत्

आपश्रौ १२, १६ : ५XX; बौश्रौ;

अवगच्छेयुः कौस् १२३, १.

ऋवगमयन्ति बौश्रौ १३, २२ :

५; १०; अवगमयत माश्रौ ५,

१, ८, ४^१.

अव-गच्छत्- -च्छते बौश्रौ १३,

२२ : ३; -च्छन् विध ५४, ९.

ऋव-गत,ता- -तः आपश्रौ १४, ६,

१६; १९, २०, १९; बौश्रौ १७,

१४ : ४; ६^१; हिश्रौ ९, ८, ३२^१;

-तम् आपश्रौ १२, १६, ५;

२१, २१; -ता बौश्रौ १३, २१ :

१३; -ते बौश्रौ २६, ६ : ४.

a) णीं पा इति कांसः ? । b) पाभे. पृ ३८२ n टि. द्र. । c) वैप १, परि. च द्र. । d) सपा.

अवक्रः <> अविधुरः इति पाभे. । e) पाभे. वैप १ परि. अवक्षेपम् टि. द्र. । f) श्लोकार्थम् ? अपक्षामम्

इत्यनेन स-न्यायता द्र. । g) नाप. (उल्लुक्-). गस. । h) पाभे. पृ २४६ ० द्र. । i) बह वैव इति पाठः ?

अव वैव इति शोधः (तु. भाष्यम्, ०. च) ।

†अव-गत्य या ९,१४; भाशि ७८.
 †अव-गत्वा सु ६,४; २२,४.
 अव-गन्तव्य,व्या- -व्यः अत्र १४,
 २; १५,५; -व्या अत्र ११,१.
 अव-गन्तोस्(ः) आपश्चौ १९,२०,
 १४†; १५; बौधौ १३,२२:२,
 ९†; २६, ६:२†; हिधौ २२,
 ३,२८†.
 अव-गमस्(ः) माशौ ५,१,८,७.
 अव/गन्ध^b > अवगन्धयति कौस्
 ११५,१.
 अव/गल्भ > अवगल्भ->
 ✓अवगल्भ, अवगल्भाय पाग
 ३,१,११.
 अव/गा, †अवागात् शांशौ १३,
 १२,१०^c; काशौ २५, ५, २९;
 १२, ६^c; आपश्चौ १४, २९, २^c;
 बौधौ २९, ५ : १२^c; वैशौ २१,
 १६ : ३^c; १२; हिधौ १५, ७,
 १५^d; कौस् १३६, २; अप्रा
 ६, ३; †अवगात्^e आपश्चौ ७,
 २८, २^c; वैशौ १०, २२ : ८;
 हिधौ ६, ८, ६; †अवगाः जैशौ
 १४ : २१; वैताशौ ६, ७; अव-
 गाम् माशौ १, ८, ६, २२†^f.
 अव-जिगीपत्- -पन् शांशौ १४,
 ५०, १^f.
 अव-नाथ^g- पाउ २, ९.
 अव/गाह, अवगाहते वैशु ६७ :
 १०; †मागृ १, ४, १६^h; अवगा-
 हन्ते हिपि ८ : ४; अवगाहेत्
 बौशौ २९, १३ : १२; वाशौ ३,

४, ३, ४१; हिधौ १०, ३, १५ⁱ;
 बौपि ३, ६, २; शंघ ९९; आपघ
 १, १५, १६; बौध १, ५, १२४;
 हिध १, ४, ७५; अवगाहेत् गौपि
 १, ७, १२; अप ४२, २, ४; वैध २,
 १४, ५.
 अवगाहयन्ति हिपि १८:२०.
 अव-गाढ- -ढः आपघ १, ११, १७;
 हिध १, ३, ६९; -ढात् काशौ
 १५, ४, २६; -ढेषु काशौ २०, ५,
 १४.
 अव-गाहन- -नम् आमिगृ ३, ७, ३;
 २४; बौपि २, २, २; हिपि १९:
 १३; आपघ २, २, ९; बौध २,
 ३, १; ४, ३; हिध २, १, ३१.
 अव-गाहमान- -नः माशौ २, १, ३,
 १६.
 अव-गाह्य काशौ १५, ४, २६.
 माशौ.
 अव/गुण्ड > गुण्डित- > ण्डित-
 शिरस्- -राः शंघ ५०.
 अव-गुण्ड्य शांशु ४, १२, २०.
 अव/गुर > गुर्य विध ५४, ३०.
 अव-गोरण- > रण-कर्व- -र्ता शंघ
 ३७७ : १०.
 अव/गु (>गू) ह, अवगृहते
 काशौ १५, ५, १३; अव-
 गृहति काशौ १, ३, १७; ६, ३,
 १५; आपशौ; †अवगृहसि
 शांशौ १२, २२, १ⁱⁱ; †अव-
 गृहामि आपशौ ७, ११, ९^j;
 बौशौ ४, ४ : ४१^j; १७, ४० :

२०; भाशौ ७, ९, ६^k; हिधौ ४,
 २, ७१^j; हिगृ १, ९, १८.
 अवगृहयति कौस् ३२, २२.
 अव-गुह्य काशौ ६, ४, ११; वैशौ
 १०, १२ : २; १२, २० : २;
 हिधौ ४, ३, ३९; दाशौ १, २,
 २९; लाशौ १, २, २२.
 अव-गृहन- -नात् काशौ ८, ८, २३;
 -ने बौशौ २०, २७ : १.
 अवगृहना(न-अ)न्त^k- -न्तम्
 काशौ ८, ८, १४; १५.
 अव/गृह, ग्रह, अवगृहति वाशौ
 १, ३, ६, १; अवगृहन्ति या १,
 १७; अवगृह्णीयात् आपशौ १२,
 २१, १; बौशौ.
 अवगृह्यते अप्रा ३, ३, २१; ४, १^l;
 अवगृह्यते आपशौ १२, २७, ५;
 अवगृह्यन्ते अप्रा ३, ४, १^m.
 अव-गृहीत, ता- -ता सु १६, ४;
 -तानाम् माशौ २, ३, ३, १३;
 २२.
 अव-गृह्य शांशौ १०, ६, ३ⁿ; आपशौ.
 अव-गृह्य- -ह्यम् उस् ४, ४; -ह्यस्य
 उस् ४, २; शुप्रा ४, १९०;
 -ह्याणि ऋप्रा १०, ७; -ह्ये ऋप्रा
 ५, ४०; शौच ४, ४४.
 अव-ग्रह^l- पा ३, ३, ५१; -हः अप
 ५९, १, १०; उस् ४, २; शुप्रा १,
 १४८; १५३; ५, १; २४; तैप्रा
 १, ४९; ३, ७; ४, २; ६, ९; १३,
 १३; अप्रा २, ४, ५; ३, ३, २१ⁿ;
 शौच ४, ७; १२३; माशि ७,

a) वैप १ द्र. । b) वैप ३ द्र. । c) पामे. वैप १ परि. अवागन् काठ ३५, ११ टि. द्र. ।
 d) अवागत् इति पाठः? यनि. शोधः । e) पामे. वैप १ परि. अवगाम् मै ३, ९, ४ टि. द्र. । f) तु. तत्रैव
 अव...गच्छति, C. च; वैतु. Pw. प्रथ. <अव / जि । g) नाप. । अर्थः व्यु. च ? । =पातःस्नान- (<अव
 / गा) इति पाठवृ. । ण्यथ- इति पाठः? यनि. शोधः (तु. पाठभो २, २, १५७) । h) पामे. वैप १ विगाहते
 मै ४, १२, ५ टि. द्र. । i) पामे. वैप १ परि. अवगृहति शौ २०, १३३, ४; ५ टि. द्र. । j) पामे. वैप १, ९६० j
 द्र. । k) विप. । बस. । l) भाप., नाप. (पारिभाषिक-संज्ञा-) ।

१०; याशि १,८३; ८५; पावा ८, २, १६; -हस्य ऋप्रा ११, ३२; -हात् शौच ३, ८५; माशि ७, ९; याशि १, ८३; -हे ऋप्रा ३, २४; शुप्रा १, ८८; तैप्रा ५, १०; १८; १६, २८; शौच ३, ६४; ६९; ७३; ४, ८०; माशि १३, २; याशि १, १३; २, २६; भाशि ६३; -हेण ऋप्रा १, ५२; -हेपु माशि ८, ६.

°अवग्रह- -हात् पा ८, ४, २६.

अवग्रह-काल- > °लिक- -कम् याशि २, ५१.

अवग्रह-दर्शन- -नात् पावा ४, २, ३६.

अवग्रह-पूर्व^१- -र्वः तैप्रा ६, २; १६, ११.

अवग्रह-वत्- -वत् ऋप्रा १०, १७.

अवग्रहा(ह-अ)न्तर- -रम् ऋप्रा १, २८.

अव-ग्रहण- > °णा(ए-आ)दित्यो-पस्थाना(न-अ)वनयन-प्रदान^२- -नानि आपथ्रौ १२, २१, १०.

अव-ग्राह^३- पा ३, ४५; ५१.

अवग्राह-शस् (:) बौथ्रौ २०, ६; १५; २१, ८; २०; बौगृ २, ८, ९.

अव√गृ(निगरणे)^४, अव...गरत् अत्र १६, ७५.

अवगिरति बौथ्रौ ३, २५; ६; भाथ्रौ ३, १७, ८; हिथ्रौ २, ८, २७; अवगिरन्ति भागृ २, १: १७.

अव-घात- अव√हन् द्र.

!अवघृत गो २, ३६.

अव√घृप् > °घृष्य जैगृ १, ८: २; १९: ३९.

अव-घ्नत्- अव√हन् द्र.

अव√घ्रा, अवघ्रेत् अप ६७, १, ३.

अवघ्रायात् आथ्रौ १०, ८, ३.

अवजिघ्रति काथ्रौ ४, १, २०; २२, ६, २; आपथ्रौ; अवजिघ्रन्ति

आपथ्रौ २२, १०, १२; हिथ्रौ १७, ४, ३०, लाथ्रौ ८, १०, १०५;

वैताथ्रौ २०, ६; ऋअवजिघ्रसि

बौथ्रौ १५, २७: ५^५; वाधूथ्रौ

३, ८८: १०; २०; अवजिघ्रामि

पागृ १, १८, ३५; अवजिघ्राति

वाधूथ्रौ ३, ८८: २३; ऋअवजिघ्र

आपथ्रौ २०, १६, १६; बौथ्रौ

१५, २७: २; वाधूथ्रौ ३, ८८:

३; ऋअवजिघ्रत आपथ्रौ १८,

४, १४; बौथ्रौ ११, ७: २४;

अवजिघ्रेत् बौथ्रौ १४, २: ८५;

भाथ्रौ; अव (जिघ्रेत्) वाधूथ्रौ

३, ८८: १३; अवजिघ्रेयुः

जैथ्रौका २०१; लाथ्रौ ८, १०,

१०; १२.

अवजघ्नौ वाधूथ्रौ ३, ८८: १०;

२१; अवजघ्नतुः बृदे ४, ६०.

अवघ्रापयति आपथ्रौ १८, ४,

१४; ५, १; बौथ्रौ; अवघ्रापयन्ति

शांथ्रौ १६, ३, १८; हिथ्रौ १३,

१, ४९; अवघ्रापयात् वाधूथ्रौ ३,

८८: १८; अवघ्रापयेत् आपथ्रौ

२२, १६, १; बौथ्रौ १६, २६:

२××; हिथ्रौ.

अव-घ्र^६- -घ्रः आपथ्रौ २, १३, १०;

भाथ्रौ २, १३, ९; वाथ्रौ १, ३, ४,

१०; -घ्रेण आपथ्रौ ८, १६,

३××; बौथ्रौ.

अवघ्र-भक्षण^७- -णेन बौथ्रौ २१, २: ६; २१: १४.

अव-घ्राण- -णम् काथ्रौ २२, १०, ४; वाधूथ्रौ ३, ८८: २२; आपगृ

१५, १; १२; -णात् काथ्रौ १०

५, ११; -णेन वाधूथ्रौ ३, ८८:

१८; २४.

अवघ्राणा(ए-अ)र्थ- -र्थम् हिथ्रौ

५, ४, ७२.

अव-घ्रात- -तम् कागृउ ४०: ३;

आपथ्र १, १७, ५; हिथ्र १, ५,

३७.

अव-घ्रातोस् (:) बौथ्रौ १५, २७:

९५.

अव-घ्रापण- -णम् बौथ्रौ २५, ३१:

१४; -णात् आपथ्रौ १५, २, ३;

भाथ्रौ ११, २, ११; -णे बौथ्रौ

२२, १२: ३; २३, १२: ६.

अव-घ्राप्य शांथ्रौ १६, १२, १७;

काथ्रौ.

अव-घ्राय आथ्रौ १, १३, ५××;

शांथ्रौ.

अव-घ्रायम् काथ्रौ ५, ९, १०.

अव-जिघ्रय कागृउ ४०: १.

अवच^८- -चाः काथ्रौसं ३०: २.

अव√चक्ष > °चक्षण- पाग ८, १, २७.

ऋअव-चक्षे आपथ्रौ १७, १८, १; पा

३, ४, १५.

अ-वचन- -नम् पावा १, १, ९; ६९;

५, २, ११६; ६, १, २; मीसू ९,

१, ३७; -नात् काथ्रौ २०,

७, २१; आपथ्रौ; पावा १, १,

२१; २७; ६५; २, ४५; २, १,

३०; ३, ९; ४, ३, ६६; ६, १,

a) विप. । बस. । b) दस. । c) भाप. । d) पा, पावा १, ३, ५१ परामृष्टः द्र. ।

e) भाप., विप. (सव्य-पाद-) । गस. उप. भावे कर्तरि च कः प्र. । f) कस. । g) =उच्च-प्रतियोगिन्- । व्यु. ? ।

१७०; ४, १६३; -ने काश्रौ १,
८, ४४; २२, १, २; गौधः पावा
२, १, २; १८; ४, ७९; ३, १, ३;
२७; ९०; ३, २०; ६, ४, ५२;
-नेन मीस् ९, ४, १४.

अव/चर्, अवचरति वौश्रौ १४, २४:
३११.

अवचारिषम् भाश्रौ १०, १८,
१०१^१.

अव/चि, अवचिनोति वृष्ट ५, ४:
१९.

अव-चित- > °त-पराचित- पाग २,
१, ७२.

अव/चृत्, ऋभव(चृत्) माश्रौ ३,
१, २९; अश्राय ४, १, अवचृतेत्
आपश्रौ १०, १३, ३; भाश्रौ १०,
८, २.

अव/च्छद्, अवच्छादयति काश्रौ
२, ४, २६; अवच्छादयेत् काश्रौ
२६, २, ३६.

अव-च्छादन- -नात् दाश्रौ २, ३, ६;
लाश्रौ १, ७, ६.

अव-च्छादयत्- -यन् कौस् २, १८.

अव-च्छाद्य शाश्रौ १३, १२, १२;
काश्रौ.

अव-च्छाद्यमा(न >) ना- -नायाम्
द्राश्रौ २, ३, १७; लाश्रौ १, ७,
१५.

अव/च्छिद्, अवच्छेत्सीः जैश्रौ ११:
२५.

अवच्छिद्यते वौश्रौ १४, ६ : २;
९१; अवच्छिद्येत माश्रौ ३, ४, ८;
अवच्छिद्येय वाधूश्रौ ४, २८^२: ४.

अव-च्छिद्य आश्रौ ६, १०, ६; वौश्रौ

३, २९ : १६; वैश्रौ १३, ३ : ९.

अव-च्छिन्न- -न्नः लाश्रौ १०, ३,
१३; -न्नम् वैश्रौ १२, १४:
१२१; -न्नान् वाधूश्रौ ३, ५ : ६.

अव-च्छेद्- -द्ः शाश्रौ १६, २०, ४;
मीस् २, ३, १९; ८, ३, १३; -दम्
आश्रौ ६, १०, ७; वाधूश्रौ ३,
९७ : १; -दात् मीस् ९, ४, ५१.

अवच्छेदा(द-आ)दि- -दौ आश्रौ
१, २, २५.

अव/च्छो > °च्छात- -तस्य गौध
२२, १.

अव/जि, अवजयन्ति विध ७२, ६;
अवजयानि वाधूश्रौ ३, ९१: २; ५.

अवजिगाय वाधूश्रौ ४, ७५:
१५; अव...जेव्यसि वाधूश्रौ ४,
७५ : १४.

अव-जिगीषत्- अव/गा द्र.
अव-जिघ्रथ अव/ग्रा द्र.

अव-जि(हा >) ह्^१ - -०ह् हिगृ १,
१५, ५१^०.

ऋभव-जिह्वक^० - -०क^० आपमं २,
२१, ३२; भाग २, २६ : ११.

अव/ज्ञा, अवजानीयात् विध ७३, ७६.
अव-ज्ञाति- -तिः कप्र २, १०, ९.

अव-ज्ञान- -ने पा ३, ३, ५५.

अव/ज्युत् > °ज्योत्य शाश्रौ २, ८,
९; ११; काश्रौ ४, १४, ५^२;
पाग २, ८, ७.

अव/ज्वल्, अवज्वलयति कौस्
४७, ५२; अवज्वलयेत् आश्रौ
२, ३, ३.

अव-ज्वलित- -तम् वौश्रौ ९, १९:
४४.

१अवट^१- पाउभो २, २, ९७; -०ट

वौश्रौ १०, ६ : ९; -टः अप
४८, ७७^१; -टम् शाश्रौ १७,
५, ८; आपश्रौ; -टस्य गौपि

१, ४, १९; -टात् आपश्रौ
१६, १८, २; वौश्रौ; -टान्
आमिगृ २, ४, १ : १०; हिगृ

१, २७, १; -टे काश्रौ ६,
२, १७; २०; आपश्रौ; -टेभ्यः

वौश्रौ १७, १२ : ३; -टेषु आपमं
२, १७, १७^१; कागृ ५५, ४; वौश्रु

६ : १५; -टौ आमिगृ ३, ३, १ :
१४.

आवट^० - -टम् शुभ्र २, ६३.

अवट-कच्छप- पाग २, १, ४८; ६,
२, ८१.

अवट-वत् काश्रौ ८, ५, १; २१.

अवट-संस्कार^१ - -रः आपश्रौ ११,
९, ११.

अवट-स्थान^१ - -ने आपश्रौ १९, ६,
१; हिश्रौ २३, १, १०.

अवट-होम- -मात् काश्रौ ८, ८,
१२.

अवटा(ट-आ)रोहण- -णे कौगृ ३,
९, ३०; शागृ ४, ७, ३५.

?अवटाहिव^१ - -कम् वैगृ ५, १० : १.

२अ-वट^१ - (> १आवटय-) पा ५,
१, १२१.

३अवट^१ - पाग ४, १, १०५; -टाः^१
वौश्रौप्र ४ : १.

२आवट्य- पा ४, १, १०५; -ट्यात्
पा, पावा ४, १, ७५.

आवट्या- पा ४, १, ७५.

अव-टीट- पा ५, २, ३१.

a) सपा. अवचारिषम् <> अतारिषम् इति पाभे. । b) विप. > नाप. ? । वस. । c) सग.

°ह् <> °ह्क इति पाभे. । d) वैप १, परि. च द्र. । e) विप. (यजुस्-) । सास्यदेवतीयः अण् प्र. ।

f) षस. । g) पाठः ? °टा(ट-आ)हित-कम् इति शोषः (तु. मूको.) । = [रावस्य] अवटाधान- । सस. उप. भाप. <

आ/धा । h) तस. उप. अर्थः ? । i) व्यप. (आषे-विशेष-) । व्यु. ? । j) बहु. < २भावट्य- ।

अवटु- पाउभो २, १, ४९^a; -टुः विध ९६, ९२^b.

†अवत^c- -तः अप ४८, ७९; निघ ३, २३; या ५, २६०; -तम् या ५, २६; १०, १३०.

‡अवतः^d चाअ १७ : ८.

अव/तक्ष, अवतक्षुयात् बौश्री २४, ३५:२.

अव-तक्षण^e- -णम् बौध १, ६, २७; -णानाम् आपश्री ७, ३, ३; बौश्री ४, १ : ३१; १७, ११ : ३; भाश्री ७, २, १२; वैश्री १०, २ : ८.

अव/तङ्, अवताडयति या ३, ११.

†अव/तन्, अवतनोति कौस १४, ३१५; अव...तनोमि आपभं २, २२, ३; हिगृ १, १५, ३; अव (तनोमि) वैताश्री १२, १३; कौस ३६, २८; अप ३२, १, ७; अव...तनुहि आपश्री १४, ३३, ६; भाश्री ६, २, २, २१; वाश्री २, २, २, १; हिश्री १५, ८, ४०; अव(तनुहि) काश्री १७, १२, १५. अव(तन्यताम्) अप ३२, १, १३; अअ ६, ६५.

†अव-तत- -तः आपश्री ४, १२, ८; भाश्री ४, १८, ४; वैश्री ७, ६ : १४; हिश्री ६, ३, १७; ४, १०; -तम् आपश्री २, ५, १; बौश्री १, १२ : १६; भाश्री २, ५, २; भाश्री १, २, ५, ८; वाश्री १, ३, २, १८; ५, २५; हिश्री १, ७, १४.

†अवतत-धन्वन्^f- -न्वा आपश्री ८, १८, ९; बौश्री ५, १७ : ७; भाश्री ८, २२, ५; हिश्री ५, ५, २१; द्राश्री १३, ३, ९; लाश्री ५, ३, १२; या ३, २१; ५, २२.

अव-तान^g- -नान्, -नेभ्यः आपश्री १७, ११, ४; हिश्री १२, ३, ४. अवतान-संज्ञक- -काः शुभ्र २, २५९.

अव/तप् > अव-तापिन्- -पिनि काश्री २१, ३, १५.

अव/तम्, अवताग्यन्दि^h आपश्री ८, १८, ९; भाश्री ८, २२, ५; हिश्री ५, ५, २१.

अव-तमस- पा ५, ४, ७९.

अव-तरⁱ- > °तरम्ⁱ आपश्री २, १७, ५¹; या १०, ४२¹.

अव-तराम् हिश्री ३, ७, ८१¹.

‡अवतरन्^j हिगृ १, १४, ४.

अव-तिष्ठत्- अव/स्था द्र.

अव/तृद्, अवतृणात्ति शाश्री १७, १७, ५; ६.

अव/तृ, †अवतरत बौपि ३, ४, १६^k; वैगृ ५, ६ : ४; गौपि १, ४, ५; अवतरेत् वैगृ २, १५ : १३.

अवतिरति निघ २, १९^l; अवा-तिरत् या २, २१^l.

अवतरिष्यामः^m वैगृ ५, ६ : ८; गौपि १, ४, ६.

अवतारयति वैगृ १, १२ : ९;

†अव(तारयन्ति) कौस ३१, २७; अअ ७, १०७; अवतारयेत् शंघ

१४५; विध १०, ६; अवतारयेयुः वैगृ ५, २ : २१; ३ : २४.

अव-तार- पा ३, ३, १२०; पावा १, ३, १०.

अव-तोये बौगृ १, ८, ६; सुधप.

‡अवतेⁿ चाअ १३ : ४.

अव-तो(क >)काⁿ- -कायै कौस ३४, ३.

अव-त्त- प्रभृ. अव/दो द्र.

अव/त्रस् > °त्रस्त्- -सन् माशि १६, ३.

‡अवत्सशङ्कुः वैश्री १३, ७ : १४.

अव-त्सा-क्षीर^o- -रम् वाध १४, ३४.

अव-त्सार^p- -रः ऋश्र २, ५, ४४;

९, ५३; वृदे ३, ५७; शुभ्र २, १३८; साअ १, ५००; २, १०५;

३२५; ४०७; ११११; ११७६; ११७७; -रे वृदे २, १२९.

आवत्सार- -०र आश्री १२, १४, ७^q; आपश्री २४, ९, १४;

१५; बौश्रीप्र ४१:१८; ४२ : १; ४३:८^r; ९; ४४:७^r; हिश्री २१,

३, १३; वैध ४, ७, १-३; ६-९.

अवत्सार-वत् आपश्री २४, ९, १४;

१५; बौश्रीप्र ४१ : १९; ४२ : २; ४३ : १०^r; ११^r; ४४ : ८^r; हिश्री २१, ३, १३^r; वैध ४, ७,

१-३; ६-९.

अव-दग्ध- अव/दह द्र.

अव-दधत्-^s, °दधान- अव/धा द्र.

अव/दम् > °दाभ्य- पावा ३, १,

a) =कृकाटिका- (तु. वृत्तिः)। b) नाप. (अङ्ग-विशेष-). c) वैप १, ४५० n द्र.। d) =ऋषि-विशेष-। पाठः? अवत्-> -वतः इति यद्वा अवति-> -तेः इति शोधः संभाव्यते। e) भाप., नाप.। गस.। f) विप.। बस.। g) नाप. (। अव...तन्मसि इति शब्दवत्-। मन्त्र-विशेष-). गस. उप. घञ् प्र.। h) वैप १ द्र.। i) सपा. °रम् <> °राम् इति पाभे.। j) पाठः? अवतरम् इति शोधः विमृश्यः (तु. संस्कृतुः टि. मूको. च, सप्र. आपभं २, २२, १० देववत्तरम् इति पाभे.)। k) आवतरत् इति R.। l) सप्र. अवतरिष्यामः <> भागभिष्यामहे इति पाभे.। m) पाठः? तु. टि. ‡अवतः। n) वैप. १, परि. च द्र.। o) बस. > षस.।

१२४.

?अवदलम्^a भाश्रौ १,६,११.

अव✓दह, अवदहति आमिष्ट ३,१०,
४ : २४.

अव-दग्ध- -ग्धम् कौस् ७१, १०;
अप्राय २, ५; अप ३७, ५, ५;
-ग्धाः अप्राय २, ५; अप ३७,
५, ५.

अव-दाघ^b- पाग ७, ३, ५३.

अव-दाह- -हात् अप ५८, १, ५.

?अवदाहेषुम् अप्राय ५, १.

अव-दाह्य- -ह्यान् भाश्रौ १,६,३,४.

अ-चदान्य- पाग ६, २, १६०.

अव-दाय-, ष्यम् अव✓दो (अव-
खण्डने) द.

अ-चदावद- -दः शाश्रौ १५, १७,
१†.

अव-दास्यत्- अव✓दो(अवखण्डने)
द.

अव✓दिह, अवदेग्धि कौस् ३१, १४.

अव✓दीप्, अवदीपयति भाश्रौ १,
६, १, १९; कौस् ८०, ५.

अव-दीप्ति- -प्तिः कौस् १३०, २†.

अव-दीप्यमान- -नम् आश्रौ ३,
१०, ९.

अव-दीयमान- अव✓दो(अवखण्डने)
द.

अव✓दृ, अवदीर्यते अप ७१, १४,
३; अवदीर्यत कौस् १२०, १.

अव-दीर्ण- -र्णम् कौस् १२०, ३;
११; -र्णे कौस् ९३, २७; १२०,
१०.

अव✓द्वै(शोधने) > अव-दात, ता-
पाग ५, ४, ३; -तायाम् पावा
४, १, ४८.

अवदात-क- पा ५, ४, ३.

अव✓दो(अवखण्डने), अवद्यति काश्रौ
१, ९, २; ३, ४, १××; आपश्रौ;
कौस् ४, ६^c; अवद्यतः वौश्रौ ५,
८ : ३४; भाश्रौ ८, ९, ९;
अवद्यन्ति काश्रौ २, ६, ३२;
वौश्रौ १५, ३३ : ४; ५; २६,
११ : १६; गोष्ट ४, १, ३; †अव-
द्यामि आपश्रौ ३, १, ७; वौश्रौ
१, १८ : ४; भाश्रौ ३, १, १;
हिश्रौ २, ३, ८; †अवद्यतात्
वाधुश्रौ ३, ७९ : २२, २४;
†अवद्य आपश्रौ १५, १९, ७;
वौश्रौ ९, १८ : २१; भाश्रौ ११,
२०, ३; अवद्येत् काश्रौ १०, ८,
२८; आपश्रौ; हिश्रौ १५, ८,
१३^d; अवद्येयुः द्राश्रौ १३,
२, ३; लाश्रौ ५, २, ७; †अव-
...अदिमहि^e आपश्रौ ८, १८,
१; वौश्रौ ५, १६ : १४; भाश्रौ
१, ७, ७, ६; वाश्रौ १, ७, ४,
६४; वैश्रौ ९, ११ : ५; अव-
(अदिमहि^e) वौश्रौ ५, १६ : १४;
अव...अदीमहि काश्रौ ५, १०,
१२†^e; अव(अदीमहि) शुश्र १,
२२२†^e.

अवदीयते वाधुश्रौ २, १५ : १.

अवदापयते वौश्रौ ३, २८ : ५५;
अवदापयति आश्रौ १, ७, ३;
१०, ८.

अव-त्त, ता- -त्तम् वौश्रौ २०, १३ :
११; भाश्रौ १, ३, २, १३; २३;
५, १३; आश्रौ १, ७, ११; माश्र
२, २, १७; २१; कौस् ४, ५; ५,
१०; या २, १^g; -त्तस्य काश्रौ

६, १०, २६; -त्तानाम् शुश्रा ५,
४५†; -त्तानि वौश्रौ २३, ३ :
१६; १८; भाश्रौ ७, १९, १५;
-त्तम् आपश्रौ २४, १४, १४;
अप्रा ३, ४, १†; -त्ते वौश्रौ १,
१७ : ११; वैश्रौ ६, ६ : १; हिश्रौ
२, २, ५; आमिष्ट १, ७, ३ : २३;
२, २, १ : ६; २ : ५; -त्तेषु
वैश्रौ १०, १९ : ११.

अवत्त-त्त्व- -त्वात् मीस् ३, ५, ७.
अवत्त-नाश^f- -शे काश्रौ १,
६, १.

अव-त्त्वा जैग २, १ : ९.

अव-दान^h- -नम् आश्रौ ३, १४,
७; काश्रौ; -नस्य वौश्रौ २०,
१३ : २८; आश्रौ १, ११, १४;
माश्र २, २, १६; २०; -नानाम्
वौश्रौ १४, १५ : १६; २०;
वाधुश्रौ; -नानि शाश्रौ ४, १८,
९; १३, २, ८; काश्रौ; -ने आश्रौ
३, १३, १८; शाश्रौ; -नेन काश्रौ
५, ५, १७; आपश्रौ; -नेभ्यः
काश्रौ १५, १०, २१; आपश्रौ ९,
१५, ९; भाश्रौ ९, १७, १०; हिश्रौ
१५, ४, २९; -नेषु आपश्रौ १३,
२३, ९†; २४, ३, १३; भाश्रौ;
-नैः काश्रौ १४, २, १७; आपश्रौ.

आवदागिक^h- -कम् वैताश्रौ
१०, २०.

अवदान-कल्प^h- -ल्पः आपश्रौ
८, १५, २२; वौश्रौ २४, ९ : १;
२६, ६ : २०; -ल्पेन आपश्रौ
२१, २, ३.

अवदान-काल^h- -ले काश्रौ ६,
७, ९.

a) विप. (पवित्र-). पाठः ? अविदल- > -लम् इति शोधः (तु. सप्र. वाश्रौ १, २, २, ६) । b) नाप. ।
गस. उप. घम् प्र. । c) अद्यति इति संस्कृतुः टि. । d) त् इति पाठः ? यनि. शोधः । e) पाभे. वैप १ परि.
द. । f) पस. । g) भाप., नाप. । गस. उप. ष्युद् प्र. । h) विप. । तत्रभवीयषु ठम् प्र. (पा ४, ३, ६८) ।

अवदान-कृत- -तम् कौसू २४, १०.
 अवदान-क्रिया-क्षम^a- -मम् कप्र २,५,१४.
 अवदान-तस् (:) बौश्री २०,६ : २××.
 अवदान-त्व- -स्वम् वाधूश्री ३, ४२ : १२; १३.
 अवदान-दोष^b- -वे आश्री ३, १४,७.
 अवदान-धर्म^b- -र्मः आगृ १, ७, १२; -र्मः शांगृ १, ३, ५.
 अवदान-प्रदान^c- -ने हिश्री १, ६,४०.
 अवदान-प्रमाण^d- -गम् आम्रिगृ २,३,१ : १२.
 अवदान-मात्र- -त्रे माश्री ३,१, २२.
 अवदान-मिश्र- -श्रः कौगृ ३, १५,४; शांगृ ३,१३,४.
 अवदान-याज्यानुवाक्या^e- -क्यासु काश्री २५,५,१९.
 अवदान-वत्- -वत् काश्री २५, १०,९; -वन्तम् वाश्री १, ६, ७,१८.
 अवदान-शेष- -षम् माश्री १,८, ५,३४.
 अवदान-श्रप(ण>)णी^f- -णीम् माश्री १,८,१,२१.
 अवदान-संपद्^b- -पदा आश्री २,६,१२.
 अवदान-सहित- -तम् काश्री २५,१०,८.
 अवदान-स्थान^b- -नम् गोगृ १,

८,१२; -नानि गोगृ १,८, ८; द्रागृ २,१,२१; -ने कागृ ६२,३.
 अवदान-हानि^b- -नौ काश्री २५, ९,९.
 अवदान-होम^b- -मः काश्री १,१, १६; पागृ ३, १२, ४; -मम् वैताश्री २२,१८.
 अवदाना(न-अ)भिघारणा(ण-आ)सादन^c- -नेषु मीसू ५,४,२.
 अवदानोय- -यम् हिश्री १३, २,३६; -यानि आपश्री १८,७, ७; वाधूश्री ३, ६१ : ८; वाश्री ३,१,२,४४; वैश्री १७,१८ : २.
 अव-दाय काश्री १, ९, ११; ५,५, २१××; आपश्री; वैश्री ५, ८ : १५?;
 अवदायऽअवदाय काश्री ३,३,१२; आपश्री.
 अव-दायम् काश्री १०,८,२७.
 अव-दास्यत्- -स्यन् वैश्री ६,६ : ८; हिश्री २,२,५; २१; १३,६,३९.
 अव-दीयमान- -नः वाधूश्री ४,५ : १५; -नम् आपश्री ४,१०, २; ६,१९,५; माश्री; -नस्य काश्री ६, ८, ८; आपश्री ७, २२,१२; २४, १; बौश्री; -नानाम् आपश्री १२, २०,१५; काठश्री १३४; बौश्री ७, १२ : ७; ८, ३ : २३; १२ : ३; -ने बौश्री ३, १८ : २१; २४ : १३; २०, २४ : २६; २७; वाधूश्री.
 ?अव-द्य^b भाश्री ८,३,३; कौसू ४५, ५?
 अव-द्यत्- -द्यन् काश्री ६, ६, २२; ७,१९; आपश्री.

अ-वद्य¹- पा ३, १, १०१; पाठ ५, ५४; -¹द्यम् आपश्री ७, २१, ६; १०, ६, १; बौश्री ४, ७ : २३; भाश्री ७, १६, १३; हिश्री ४,४, ४४; १०, १, ३४; जैश्री १२ : ६; द्राश्री ४, २, २; लाश्री २, २, ११; कागृ ३, ५; अश्री ३, ४, १; -¹द्यात् कौसू ५,१; तैश्री ११, ४; पा ६, १, ११६; -¹द्यानि ऋश्री २, ४५; ८, ४१.
 अवद्य-वदन- -नम् गौघ १९,३.
 अव√द्युत् > अवद्युत्य आपगृ १, २२.
 अव-द्युत्य कौगृ १,४,५; आम्रिगृ.
 ?अवद्येपः अप्राय ४,२.
 अव√द्र, अवद्रवति बौश्री १०, ३६ : १९; २७; ४० : २३; ४३ : ६; ४६ : ५२; १७, १७ : १०; अवद्रवत्) बौश्री १५, २२ : २.
 अव-द्रवण- -णम् बौश्री २२, ४ : ६; २३, १५ : १०; १४; -णे बौश्री १९, ४ : १५.
 अव-द्रुथ्य बौश्री १०, २१ : १०; ४६ : २४ ××; बौषि.
 अ-वद्य¹- -द्यः वाध ४,७; विध ५१, ६१; -धेन गौघ २, ४९.
 अव-धर्ष- -अव√धृष् द्र.
 अव-धवन- -अव√धू द्र.
 अव√घा, अवद्घाति काश्री २, ४, १२; ५, ९, ३××; आपश्री १८, ४, १^m; हिश्री २४, ६, १२^m; अवधत्तः भाश्री ८, ७, ७; माश्री १, ७, ४, ६; अवद्घामि कागृ २६, ३; ३;

a) विप.। षस.>सस.। b) षस.। c) द्रस.। d) =अलृगृष्टपर्वमात्र- (तु. काश्री १, ९, ६)। e) सस. उप. द्रस.। f) नाप. (पात्र-विशेष-)। कास.। g) पाठः ? अदाय इति शोधः (तु. मूके.)। h) पाठः ?। नैप्र. <अव-दाय इति। i) वैतु. संस्कृता अवदाय वा अवदाप्य वेति। j) वैप १, परि. च द्र.। k) पाभे. वैप १, १६४७ ० द्र.। l) तस.। m) पाभे. पृ ८५ f द्र.। n) सपा. आपश्री १५, १५, १ समवद्घाति इति पाभे.।

अवद्धम्: कौस् १३९, २६५;
 ऋभवत्तात् बौश्रौ ४, ८:५; ७;
 अवधेहि कौस् ६४, १३५;
 अव...धेहि वैताश्रौ ३६, ३०५^१;
 अवदध्यात् आश्रौ ५, १२, १५;
 ६, ३, ११; बौश्रौ; अवदध्युः
 आश्रौ ६, १३, ८; आश्रु ४, ५,
 ५; ७.

ऋवधुः आश्रौ १६, ११, १२;
 हिश्रौ ११, ४, १२.

अवधीयते कौशि ४८.

अवधापयेत् आश्रु २, ८, १४;
 ४, ४, ८.

अवदधत्- -धत् बौश्रौ ८, २० :
 ३; १०, ५२ : २८; -धतम्
 कौस् ६४, १३.

अवदधान- -नस्य कौशि ४४^१.

अवधातव्य- -व्यम् कौशि ४२.

अवधान- पाग ५, २, ८८^१; -नम्
 बौश्रौ २५, ३१ : ६; -नात् बौश्रौ
 २०, ६ : २७.

अवधाना(न अर्थ>)र्या- -र्याम्
 आपश्रौ १३, १९, ८.

अवधाना(न-अ)ष्टक- -कम्
 भाशि १३०.

अवधानिन्- पा ५, २, ८८.

अवधाय आश्रौ ६, ९, १; १२, ११;
 शाश्रौ; बौशि^१ ३, १०, १; ३.

अवधि- -धि: कप्र २, १०, १२.

अवध्य(धि-अ)र्थ- -र्थ: भास्
 ३, ५.

अवधेय- -य: आपश्रौ ६, १२,
 ६^३.

अवहित- पाग ६, २, १४७; -तः
 शंघ २५३; -तम् शाश्रौ १६,
 १३, ४५; या ४, ६; -तात् विध
 ३, ७१.

अवहित-पाणि^१- -णि: कौग ३,
 ९, ४२; ११, १४; आपध १, ६,
 १०; १४, २२; हिध १, २, ३३;
 ४, ५१.

अवहित-शम्य^१- -म्ये भाश्रौ
 १२, ६, ९.

अव-धार्यमाण- अत्र/धृ द्र.

अव/धाव् (गतौ), ऋवधावति
 आपमं २, १६, ७^१; भाश्रु २, ७:
 १९^१; हिश्रु २, ७, २^१; अपं २:
 १९.

अव/धु, धू, अवधूनीति काश्रौ २,
 ४, २; आपश्रौ; ऋव(धूनुषे)
 आश्रौ ७, ४, ४; शाश्रौ १२, ५,
 १२; अव...अधूनीत् या ७,
 २३^६; अवधुनुयात् बौश्रौ २०,
 ६ : २३; २३, ४ : १६; हिध २,
 ५, ७९^१; अवधूनुयात् आपध २,
 १९, ७^१.

अवधुनेत्^१ विध ६४, १०.

अवाधूष्ट कौस् ९७, ८^१; अव...
 अधूषत् बौश्रौ ५, १५ : १३^१.

अव-धवन- -ने बौश्रौ २०, ६ :
 २२; २३, ४ : १५.

अव-धूत, ता- -त: पाश्रु ३, १५, १६;
 -ऋतम् काश्रौ २, ४, २^१; आपश्रौ
 १, १९, ३^१; बौश्रौ^१ १, ६ : १२;
 ७ : २; भाश्रौ १, २१, १^१;
 माश्रौ १, २, २, ६^१; वाश्रौ १, २,

४, ४०^१; वैश्रौ ४, ६ : ९^१; हिश्रौ
 १, ५, ४२^१; विध २३, ३८^१;
 शुश्र १, ५२^१; -ऋता^१ आपश्रौ
 १, १९, ३; बौश्रौ १, ६ : १२;
 ७ : २; भाश्रौ १, २१, १.

अव-धूय दाश्रौ ३, २, २७; लाश्रौ.
 ?अवधूममर्कट^१- -टा: अप १, ७, १०.

अव/धु, अवधारयति भाश्रौ ९,
 १४, ६; वैश्रौ २०, २० : १;
 हिश्रौ १५, ३, १०; ११^१; २७;
 निस् ३, २ : १८-२०; अवधार-
 येत् आपश्रौ ९, ९, १०; माश्रौ
 २, १, ५, ३; वैश्रु ३, १४ : ४.

अव-धारण^१- -ण: भास् ३, ५;
 -णम् या १, २; माशि १४, ८;
 पा ८, १, ६२; पावा २, १, २;
 -णात् पावा १, २, १८; २, १,
 २; ८, १, ७०; २, २; -णे शुप्रा
 ६, २२; पा २, १, ८; पावा ६, ४,
 १३५.

अवधारण- -णम् पावा १, १,
 ५१; -णात् पावा ६, १, ६८.

अवधारण-प्रतिषेधा(ध-अ)र्थ-
 -र्थम् पावा ७, २, २६.

अवधारणा(ण-अ)प्रसिद्धि- -द्धि:
 पावा ८, ४, ३२.

अवधारणा(ण-अ)र्थ- -र्थम् पावा
 ४, २, १३३; ७, ४, ३५.

अव-धारित- पाग २, १, ५९; ५, २,
 ८८; -तम् भास् २, १३.

अवधारित-का(म>)मा- -मा
 निस् ३, २ : २७; -मा: निस्
 ३, ३ : ७.

- a) सपा. अव...धेहि<>उद्ध...धेहि<>उद्...धेहि इति पाभे. । b) अवधानस्य इति पाठः? यनि. शोधः । c) तु. पासि. । गणे पाठः? । d) निधाय इति B. । e) विप. । बस. । f) पाठः? षन्ति इति शोधः (तु. आपमं [मूको.], हिश्रु. संस्कृतिः टि.; वैतु. आपमं [भू. XVI] षन्ति इति? । g) पाभे. वैप १, १७२७ j द्र. । h) सपा. °धु<>°धू इति पाभे. । i) इना-वैविकरणद्वयान्वित रूपम् । j) पाभे. वैप १ पुरापूतम् मा १, १६ टि. द्र. । k) पाभे. वैप १ पुरापूता मै १, १, ७ टि. द्र. । l) =देश-विशेष-? । व्यु. ? । m) भावकरणयोर् ल्युट् प्र. ।

अवधारित-त्रिणिघन^१ - नानि
निस् ५, १ : १६.
अवधारितन्- पा ५, २, ८८.
अव-धार्यमाण- -णम् निस् ३, २ :
२७; -णे पावा ८, १, १२.
अव-धेय- अव√धा द्र.
अ-वध्य^२ - -ध्यः बौध १, १०, १७;
गौध ८, १२.
?अवध्यायिकम्^३ हिथ्रौ २१, १, १६.
अव√ध्वंस>^४ध्वस्त- -स्तः आथ्रौ
९, ४, ६.
१अवन- √अव् द्र.
२अ-वन^५ - -नम् हिपि १ : ५.
अव-नक्षत्र^६ - -त्रे कौस् २७, २९; ३३;
२८, ५; ३१, २८.
अव√नम्>अव-न्त, ता- पाग ४,
२, ८०^७; -तम् आपथ्रौ ७, १०,
११; वाधूथ्रौ ४, ९०^८ : ३; ६;
वैथ्रौ १४, ६ : १७; -ता माशि
२, ९.
आवनतीय- पा ४, २, ८०^९.
अव-नाम्य बौथ्रौ ९, ३ : १.
अव√नर्द>अव-नर्द^{१०} - -र्दौ लाथ्रौ
७, १०, २२; २३.
अव√नह्, अवनह्यति आपथ्रौ १८,
१८, ६; हिथ्रौ १३, ६, १८.
अव-नह(न>)नी^{११} - -नि आपथ्रौ
१८, १८, ६; हिथ्रौ १३, ६,
१८^{१२}.
अव-नह्य काथ्रौ १३, ३, २०.
अव-नाट- पा ५, २, ३१.
अव-नाय- अव√नी द्र.
अवनि- √अव् द्र.
अव√निज्, अवननिके हिथ्रौ

१, ६, ११६; १०, २,
५६; अवननैक्ति भाथ्रौ १०,
१०, १३^{१३}; वैथ्रौ ५, २ : ८;
†अवननैजि आपथ्रौ ६, २०, २;
काग २४, १०^{१४}; गोग ४, १०,
१०^{१५}; अवननैक्ताम्, अवननै-
जताम् शांथ्रौ ४, १५, ६^{१६};
†अवननैक्व शांथ्रौ ४, ४,
२; काथ्रौ ४, १, १०; पाग २,
१४, १२^{१७}; भाग २, १२ : ५;
गोग ४, ३, ६; कप्र १, ३, ११;
†अवननैङ्क्व भाथ्रौ १, ८, ६^{१८};
हिथ्रौ २, ७, २४^{१९}; आमिग ३, १,
३ : ४^{२०}; हिग २, १२, २^{२१}; द्राग
३, ५, १६; अवननैजीत
माथ्रौ ६, १, ३, ११; वाथ्रौ १, ५, ४,
१; हिथ्रौ १७, १, ५३; गो १, २;
अवननैजेत् वाग ५, १३^{२२}.
अवननैजयति काथ्रौ ४, १, ९; पाग
२, १४, ११; बैग ६६ : ११;
अवननैजेत् कप्र १, ३, १४;
अव...नैजेत् वाधूथ्रौ ३, ३४ :
११.
अव-निक्त- -क्तौ कौस् ९०, ११^{२३}.
अव-निज्य काथ्रौ २, ६, ३५; आपथ्रौ.
अव-नैकृत् - -कृत्ः बौथ्रौ १७, ४३ :
९; आमिग २, ६, ६ : १४; बौग
१, २, २४.
अव-नैजन- -नम् पाग २, ६, १९ :
-ने कप्र १, ४, ८; ३, ५, १५.
अवननैजन-दान-प्रत्यवनेजन^{२४}-
-नेषु पाग ३, १०, २७.
अवननैजन-प्रवा(द>)दा^{२५} - -दाः
भाथ्रौ ६, ३, ११.

अवननैजन-वत् कप्र १, ३, १४.
अव-नैज्य शांथ्रौ ४, ४, १५; काथ्रौ.
अव-नि√नी> -नि-नीय आथ्रौ २,
३, २२; शांथ्रौ; शांथ्रौ १, २२,
१३^{२६}.
अव√नी, अवनयति शांथ्रौ ७, ४,
१५; काथ्रौ; अवनयतः आपथ्रौ
१२, २५, ४; बौथ्रौ; अवनयन्ति
हिथ्रौ ९, ४, ५५; †अवनयामि
शांथ्रौ ७, ४, १५; आपथ्रौ;
†अवनयामः आपथ्रौ १५, १४,
१०; बौथ्रौ, †अव...नयामसि
बौथ्रौ ८, १५ : १०; हिथ्रौ ९,
४, ४०; अवनयेत् आथ्रौ ३, १२,
११; शांथ्रौ.
अवनयिष्यसि वाधूथ्रौ ३, ४१ :
२५.
अवनीयते हिथ्रौ ८, ४, ४०.
अव-नयत् - -यन् द्राग १, ४, ३; १२.
अव-नयन- -नम् शांथ्रौ ७, ४,
१६; बौथ्रौ ९, १७ : २८; १४,
९ : ४९; वैथ्रौ १५, २७ : ४;
९; १६, २ : १०; हिथ्रौ ७, ७,
६; ९, १, १६; -नात् शांथ्रौ ७,
३, १; ४, १७; आपथ्रौ १२,
१६, ४; १३, १५, १५; वैथ्रौ
१५, १८ : ४; ३२ : ८; १६, १९ :
८; हिथ्रौ ८, ७, ५३; १०, ४, १५;
-नानि हिथ्रौ ८, ८, ५०^{२७}; -ने
बौथ्रौ २१, २२ : २४.
अवनयन-मन्त्र- -न्त्रः बौथ्रौ
२१, २३ : २४.
अवनयना(न-अ)वस्तरण^{२८} - -ने
काथ्रौ ८, ५, २१.

a) विप.। बस.। b) तस.। c) पाठः? वध्यादिकम् इति संस्कर्तुः शोधः?। d) अर्थः व्यु. च?।

e) =देश-विशेष-?। f) =सामोच्चारणप्रकार-विशेष-। g) अर्थः?। =नागदन्त- इति। C.। अघिकरणे प्र.।
h) अवनह्यति हनि इति पाठे ह्यति इत्यंशो मुद्रणश्रेषः (तु. आपथ्रौ.)। i) °नैनिकि इति पाठः? यनि. शोधः।
j) दस.। k) सप्र. अवनिनीय<>अवनीय इति पाठे.। l) नाप.।

अवनयामि-स्थान- ने काश्रौ १०, ७, ७.
 अव-नाय- पा ३, ३, २६.
 अव-नीत- -तः वैश्रौ १५, १६ : ७;
 -तम् या ६, ३६१.
 अव-नीय आश्रौ ५, ६, ३; काश्रौ;
 हिश्रौ १५, १, ४२^०; कौश्र १,
 १४, १०^०.
 अव-नीय- -यः आपश्रौ १३, १६, २.
 अव-नीयमान, ना- -नम् वैताश्रौ
 २३, ७; -नान् काश्रौ १४, ३, ३;
 -नासु शाश्रौ ६, ७, ६; १४,
 ५१, १०.
 ?अवनु^० लाश्रौ ३, ५, १५.
 अव-नेकृ- प्रभृ. अव/निज् द.
 १अवन्ति- √अव् द.
 २अवन्ति^०- -न्तयः बौध १, १, २९;
 -न्तीनाम् अप ५०, ३, ३.
 ३आवन्त्य^०- -न्त्यः अप ५६,
 १, १०.
 आवन्त्य-क^०- -काः अप ५६,
 १, ५.
 २आवन्त्य^०->अव(न्ति >)
 न्ती^०- पा ४, १, १७६.
 अवन्त्य(न्ति-अ)श्मक^०- पाग २,
 २, ३१; ६, २, ३७.
 अवन्त्या(न्ति-आ)दि- -दिभ्यः
 पावा ४, १, १७५; -दीनाम्
 पावा १, २, ४९^२.
 अवन्त्या^०- -न्यायाम् अप ५१,
 १, ३^६.

अ-वन्ध्य- -न्ध्यम् याशि २, १०८.
 अ-व(पा>)प^०- -पानाम् आपश्रौ
 २०, २५, १३; हिश्रौ १४, ६,
 २४.
 अव/पत्(गतौ), अवपत भाग १,
 २३ : २०; अवपतेत् आपश्रौ
 २०, ७, १९; अप ३७, १४, १.
 अव-पतित- -तम् कौस् १२६, ११;
 -ते कौस् १२६, १०.
 अव/पद्, अवपद्यते काण ३६, ६;
 अवपद्यत शाण्ट ३, १३, ५^१म्;
 ऋअवपद्यताम् आपमं^० २, १९,
 १; ३; ५; कौश्र ३, १५, ५^१म्;
 आम्रिण्ट ३, १, १ : २१^१म्; काण
 ३३, २; बौग २, ११, २८^१म्; भाग
 १, २२ : १३; अव^०पद्यताम्
 पाण्ट १, १६, २^१; ऋअवपद्यस्व
 आपमं २, ११, १९^२; आम्रिण्ट २,
 १, ३ : ९^३; भाग १, २२ : १५^३;
 वैग ३, १४ : १३; हिण्ट २, ३,
 ३^३; अप्राय २, ९^४६; अवपद्येत
 आश्रौ २, २, ५; भाश्रौ २,
 ३, ५; हिश्रौ १५, १, ४२;
 १७, १, ५३; जैग १, ३ : २;
 अव^०पद्येरन् निस् १, ५ : १८;
 ५, ६ : २२.
 अवपत्स्यन्ति हिश्रौ ३, ४, ३३;
 ऋअवपदम् हिश्रौ २१, १, २;
 २, २०.
 अव-पञ्च,ञ्चा- -ञ्चम् द्राश्रौ ५, ४, ८;
 अप्रा २, ३, १६^१; -ञ्चाः कौस्

४९, २; -ञ्चानाम् अप्राय ६, ५;
 -ञ्चे कौस् ३३, १५.

अ-वपन^०- -नम् पाण्ट २, १, २४.
 अव/पश्, ऋअवपश्यामि शाश्रौ ४,
 ८, १^०; आपश्रौ १, २०, ११^०;
 भाश्रौ १, २३, ९^०; ३, १७, ७;
 वैश्रौ ४, ७ : १४^०; हिश्रौ २, ८,
 २४; जैश्रौ १४ : ८; ऋअवप-
 श्यत आश्रौ ५, १३, ४; ८, १२,
 ७; शाश्रौ ७, १६, २; १०, १३,
 ६; वैताश्रौ १४, ३; अप २:७४;
 अवापश्यत् वाधुश्रौ ४, ३३ :
 ३; ५० : २.

ऋअव-पश्यत्- -श्यन् आपमं १, २,
 ३; अप्रा २, ४, १५.

अ-वपाक^०- -कानाम् शाश्रौ १६,
 १५, १०; काश्रौ २१, २, ५.

अव/पृच्, अव^०अपृञ्चत हिश्रौ १०,
 ६, ९^१०.

अव-प्र/स्रु>अवप्र-स्रुत- -ते काश्रौ
 २५, ११, ३३^१.

अव/पुष् > ऋअव-पुष्- -पुषः^१
 आपश्रौ ३, १०, १; बौश्रौ १, २० :
 १९; भाश्रौ ३, ९, ६; माश्रौ १, ३,
 ५, १३; वाश्रौ १, ३, ७, १४;
 हिश्रौ २, ५, २९.

अव/प्लु>अव-प्लुत- -तः आण्ट
 २, १, ५^१.

अव/वध्,न्ध, अवबध्नीते पाण्ट २,
 ६, २४.

अव-वध्य कौस् ३६, ६.

a) अवमनीय इति पाठः? यनि. शोधः। b) पामे. पृ ३९१ k टि. द.। c) पाठः? अवतु इति शोधः (तु. द्राश्रौ २, १, १६)। d) =जनपद-विशेष-। व्यु. ?। e) चातुरथिकः ण्यः प्र. उभं. (पा ४, २, ८०)। f) संज्ञायाम् स्वार्थे कन् प्र.। g) =अवन्ति-राज-। ज्यङ् प्र. (पा ४, १, १७१)। h) नाप. (राज-कुमारी-)। स्त्री. प्र. लुकि ङीष् (पा ४, १, ६५)। i) द्वस.। आव^० इति पाका.। j) २अवन्ति->न्ति-का->न्ति आ> नैप्र. यनि. (तु. २असुर्थे- [वैप १]) इति मतम्। k) शक [१२६] अवन्त्याम् इति। l) विप.। बस.। m) पामे. पृ २५० ० द.। n) तस. उप. <√वप् [मुण्डने]। o) पामे. वैप १ प्रतीक्षे टि. द.। p) सपा. ऋअवत <> ऋजन् <> ऋजन् इति पामे.। q) पामे. वैप १, ८९१ g द.।। r) अवि^० इति आन. ?।

अव/वाद् (>ह) ^a > ँअव-बाढ^a-
 -ढः आपथ्रौ २, २, २; ११, ११, ८; ९; वौथ्रौ ३, २७ : २३; ६, २८ : १४; वैथ्रौ १४, ७ : १३; १५; १७; ८ : २; हिथ्रौ १, ६, ७४; ८२; ७, ६, १२; १३; -ढम्^b आपथ्रौ २, २, २; वैथ्रौ ४, ७ : १०; हिथ्रौ १, ५, ६६; -ढाः आपथ्रौ २, २, २; हिथ्रौ १, ६, ७९.
अव/वाध्, अवबाधते काथ्रौ ३, १, ७; ँआपथ्रौ ११, ११, ८; ११; वाथ्रौ १, २, ४, ५७; ६, ५, २३; वैथ्रौ ४, ७ : १०; १५, २६ : ६; हिथ्रौ १, ५, ६६; ७, ६, १०; २१, २, २१; ँअवबाधे शांथ्रौ १, ५, ९; काथ्रौ ३, १, ७; आपथ्रौ ७, १८, १४; १२, २२, ५०; वौथ्रौ ३, २७ : २३; माथ्रौ १, २, २, २२; ८, ४, १०; वाथ्रौ १, २, ४, ५७; ६, ५, २३; अत्र ४६, ५, २; ँअव बाधे आपथ्रौ ४, ७, २; १३, १८, ९; वौथ्रौ १४, २० : १६; २०; २४; माथ्रौ ४, १०, २; वैथ्रौ ५, ७ : १०; हिथ्रौ ६, २, १७; अवबाधामहे हिथ्रौ २१, १, २०; अवबाधासै वौथ्र ४, २, १०; ँअवबाधताम् आपथ्रौ १०, १८, ३; हिथ्रौ १०, २, ६५; अवबाधस्व याग्य १, ७, १; अवबाधेत हिथ्रौ १०, ४, २३.

अव-बाध्य वैथ्रौ १४, ७ : १२.

अव/वुध्, अवबुधेरन् वैथ्रौ २०,

३७ : ४.

अवबोधयति वैध ३, २, १३.

अव-बुध्य वैथ्रौ २१, ४ : ७.

अव/भा, अवभाति या २, ७०.

अव/भास्, अवभासते सु १३, २.

अव-भास- -सः कौस् १३०, १; -साः

अप ७२, ३, ५; -से कौस् ९३, ३७.

अव/भिद्, अवभिनत्ति वौथ्रौ १६,

२२ : २; ३; अवभिन्धात्

आपथ्रौ ९, ५, ७; माथ्रौ ९, ८, ४;

माथ्रौ ३, २, ३; अप्राय ४, ३.

अव-भेदक- -०क पाग्य ३, ६, ३.

अव/भुज् (कौटिल्ये) > ०भुज्य

कौस् १९, २३.

अव/भृ, अव(भरः) ऋप्रा २, ४००.

अव-भृथ¹- पाठ २, ३; -०थ्य

काथ्रौ ५, ५, २९; १०, ९, ३;

आपथ्रौ; -थः आथ्रौ ६, १०, ३१;

१३, ९, शांथ्रौ ३, १५, २३; १८,

२४, १६; आपथ्रौ; ँया ५, १८६;

मीस् ७, ३, १२; -थम् आथ्रौ २,

१७, १६××; शांथ्रौ २, १२, १२०;

काथ्रौ; वैथ्रौ ९, ३ : १८¹; हिथ्रौ

५, ३, ४८¹; -थस्य आपथ्रौ १३,

१९, १; काथ्रौसं; -थाः वौथ्रौ २६,

१ : ४; -थात् शांथ्रौ १३, ६, ४;

१४, ६, ६; १५, १३, २; काथ्रौ;

-थाय काथ्रौ १९, ४, २; माथ्रौ;

-थे आथ्रौ ३, ६, २२; ६, १०,

१; काथ्रौ; -थेन आपथ्रौ ८, ७,

२७; १८, २०, ३; २०, २२,

६^६; वौथ्रौ १४, २६ : १६; १८,

५० : २१^h ××; माथ्रौ; हिथ्रौ १४, ५, ३^६.

आवभृथ-> ०थ-क¹- के वाथ्रौ ३, ४, ५, १७^६.

आवभृथिक¹- -कः वौथ्रौ २६, १० : १०.

अवभृथ-कर्मन्- -र्म शांथ्रौ १५, १३, १४; १८, २४, १३.

अवभृथ-गमन- -नम् आपथ्रौ ८, ७, १८; १३, २०, ६; हिथ्रौ ९, ५, १८.

अवभृथ-दीक्षा(क्षा-अ)भ्यास^k- -सः काथ्रौ १५, ८, १३.

अवभृथ-दीक्षा-श्रुतिक^k- -तिभ्याम् काथ्रौ १९, ८, ११.

अवभृथ-न्यङ्ग¹- -ङ्गः लाथ्रौ १०, १२, १; -ङ्गम् दाथ्रौ १३, १, ८; १२; लाथ्रौ ५, १, ८; १०.

अवभृथन्यङ्ग-स्थान- -ने दाथ्रौ १३, ३, २१; लाथ्रौ ५, ४, ६.

अवभृथ-प्रत्याम्नाय- -यः आपथ्रौ २२, २६, १३; हिथ्रौ २३, ४, २७.

अवभृथ-प्रभृति- -ति वौथ्रौ २६, ३२ : २१; ३३ : १०.

अवभृथ-यजुस्- -जूषि वौथ्रौ २५, २४ : २६; २७; आमिग्य १, २, १ : १०; वौथ्र ३, १, २२.

अवभृथ-वत् काथ्रौ १९, ५, ११; १६; २६, ७, ७.

अवभृथ-वैला- -लायाम् वौथ्रौ १४, २७ : १८.

a) वैप १ द्र. । b) पाभे. वैप १ पुरापूतम् मा १, १६ टि. द्र. । c) पाभे. वैप १ सासह्याम टि. द्र. । d) नाप. (इष्टि-विशेष-, साम-विशेष- प्रभृ.)। शिष्टं वैप १, परि. च द्र. । e) सपा. काथ्रौ ४, १५, ४ व्रतम् इति पाभे. । f) पाभे. पृ २३९ I द्र. । g) सप्र. अवभृथेन प्रचर्ये <> अवभृथेन प्रचरिते <> आवभृथके कर्मणि कृते <> अवभृथेष्टयन्ते इति पाभे. । h) एतेन इति पाठः ? यनि. शोधः । i) त्रिप. (कर्मन्-) । स्वार्थे प्र. । j) विप. (हद-)। ठक् प्र. । k) द्रस. > षस. । l) नाप. (तत्प्रकारक-कर्मन्-)। षस. ।

भवभृथ-श्रुति- -ति: मीस् ४, २, २२; -ते: काश्रौ २२, १, १३.
 भवभृथ-सामन्^१- -म द्राश्रौ ६, ४, १; ६; लाश्रौ २, १२, १; ७;
 -ञि जैश्रौ २६: ११.
 भवभृथ-सोम^२- -मात् वैताश्रौ ८, २३.
 भवभृथा(थ-आ)दि- -दि काश्रौ २४, ७, ९; -दिषु बौश्रौ २९, १२: ११; -दीनि मीस् ११, ४, २.
 भवभृथा(थ-अ)न्त- -न्ते काश्रौ २५, १२, २२; -न्तेषु हिश्रौ ७, १, ७६.
 भवभृथा(थ-आ)हुति- -ति: बौश्रौ २५, २४: ३०; -तिम् बौश्रौ १०, ५९: १४; १५, ३६: २४; -तौ बौश्रौ २५, २४: २९१.
 भवभृथे(थ-इ)ष्टि- -ष्टि: आश्रौ २, १७, १७; -ष्टे: काश्रौ १९, ५, १२; ७, १२; -ष्टौ हिश्रौ १७, ४, १७; द्राश्रौ ६, ४, ८; लाश्रौ २, १२, ९; -ष्टया आश्रौ ६, १३, ३; जैश्रौ २१: १०; -ष्टयाम् आपश्रौ २२, १०, १; वैताश्रौ २३, २०; जैश्रौ २१: ११.
 भवभृथेष्टय(ष्टि-अ)न्त- -न्ते काश्रौ २०, ८, १६९; जैश्रौका २०८.
 भवभृथो(थ-उ)क्त- -क्त: बौश्रौ २५, ६: १५.
 भवभृथो(थ-उ)दयनीया(या-अ) नूबन्धो(न्ध्या-उ)द्वसानीया- -यासु आपश्रौ २०, ८, १६.

अव-भेदक- अव/भिद् द्र.
 अव/भ्रंश, भव...भ्रंशत्^d शाश्रौ १२, २२, ६१.
 अव-भ्रट- पा ५, २, ३१.
 अवम, मा^१- पावा ४, ३, ८; पाउ ५, ५४; -म: ऋशाश्रौ २, ५, ३१ × ×; बौश्रौ; -मम् बौश्रौ २४, ११: १७; अत्र १०, १०; अप्रा ३, ४, १; -मस्याम् या १२, ३११; -मा ऋशाश्रौ २, १८, १९; ३, ८, १; ७, ६, ४; आपश्रौ ७, २, १६; अप्रा ३, ४, ११; -मा: बौश्रौ २४, २३: ८; -मि अप ४८, ७३; निघ २, १६; अप्रा ३, ४, १; -मिभ्य: द्राश्रौ ७, २, ११; लाश्रौ ३, २, ११; -मै: जैश्रौ १५: २१; जैश्रौका १४४; द्राश्रौ ५, १, १८१; लाश्रौ २, ५, १४१.
 अव/मन्, अवमन्यते विध ९६, २०; अवमन्येत विध ७१, १; अवमन्येत् वैध ३, ३, ६.
 अवमंस्था: सु १२, ३.
 अवमानयेत् विध ५९, २७.
 अव-मन्तृ- -न्ता वैध ३, ३, ६.
 अव-मन्यत्- -न्यत: बौश्रौ २९, ८: २४.
 अव-मान- -ने वैध ३, ७, २.
 अव-मानित- -ता: कौश्र ३, १०, ३५; आमिष्ट २, ५, १: ५५; जैश्र २, ९: ४१.
 अव/मा(माने), अवमिमीते आपश्रु ८-९, ३.
 अव/मिद्, अवमेहेत् आपध १, ३०, १७; बौध १, ५, ६८.
 अव/मुच्, ङच्, भवमुञ्जते गोग

३, ४, २२; भवमुञ्जते द्राश्र ३, १, २०.
 भव-सुच्य कौस् ३९, ८; वृदे ५, ७२.
 अव-मूर्धेन्^१- > ष्-शय- पावाग ३, २, १५.
 अव/मृज्, अवमार्जेत् हिश्रौ १३, ६, ३९.
 अवमार्ष्टि आपश्रौ ६, १०, १०; भाश्रौ ६, १२, ७; माश्रौ; भव... मार्ष्टि बौश्रौ २, १८: ३६१; अवमृज्यात् माश्रौ १, २, ६, ५; २, ३, ३, १९.
 अवमृजन्ते वौषि १, ४: २२; हिपि ५: २; भव...भमृजन् काश्र ४१, ५१.
 अव-मृज्य आश्रौ २, ३, २०; आपश्रौ.
 अव/मृज्, अवमृजति आपश्रौ ७, १८, ४; ११, १२, ३; ४; बौश्रौ; अवमृशत: बौश्रौ ६, २८: १९; अवमृशन्ते आमिष्ट ३, ५, ६: ६; ७; अवमृशन्ति काश्रौ ८, १, २०; १०, ८, ८; अवमृशताम् पाश्र २, ६, १२; अवमृशेत् काश्रौ २, ६, ३०; बौश्रौ १४, ९: २; ३.
 अवाभृशत् माश्रौ ३, ५, १५१.
 अवमर्शयति काश्रौ ८, ५, १२; वाश्रौ १, ६, ५, १३; वैश्रौ १०, १४: ६; अवमर्शयेत् आपश्रौ ११, १, ४.
 अव-मृशत्- -शन्त: द्राश्रौ १४, २, ३.
 अव-मृश्य वाश्रौ १, १, ४, १९; वैश्रौ.
 अव-मृष्ट- -ष्टम् आपध १, १६, २५; हिध १, ५, २४.
 अव/यच्छ, यम्, भवयच्छति माश्रौ १, ८, १, ८.

a) नाप. ([भवभृथ-नीयमान-] साम-विशेष-). b) षस. राजदन्तादिषु उंसं. । c) पाभे. पृ ३९३ g द्र. । d) तु. वैप १, ४५७ f । e) वैप १, परि. च द्र. । f) पाभे. वैप २, ३३६. ऊमै: ऐजा ७, ३४ टि. द्र. । g) षस. । ष्-धन्-? इति भाण्डा. । h) पाभे. पृ ३९२ p द्र. ।

अव-यम्य माश्रौ २, ४, १, ११.
अव/यज्, †अवयजते बौश्रौ १५,
 २ : १७; ३६ : २८; २५, १ :
 २१; अवयजन्ते जैश्रौ २० : ४;
 †अवयजे आपश्रौ ५, १६, ४^३;
 १८, ८, १३; १९, ४, ९; बौश्रौ.
 †अव...यजे^० आपश्रौ ५, ५, ८;
 बौश्रौ; †अवयजामहे^० आपश्रौ
 १६, १६, १; बौश्रौ १९, ५ :
 १९; वैश्रौ १८, १४ : ७.
 †अवयक्ष्व आपमं १, ४, १५;
 आमिष्ट १, ५, ४ : १०; अप्राय
 ४, १; अव...यक्ष्व^० हिश्रौ १५,
 ५, १†.
 अव...इयक्ष्व आपश्रौ १४, १७,
 १†^०.
 †अव...अयाट्, अव(अयाट्.)
 बौश्रौ ८, २० : १२; †अव...
 अयक्षत जैगृ १, २१ : २१^०;
 †अव...अयक्षमहि^०, †अव(अय-
 क्षमहि) द्राश्रौ १३, २, १३; लाश्रौ
 ५, ३, ५.
 †अव-यजन- -नम् आश्रौ ६, १२,
 ३^१; शाश्रौ.
 अव-यज्या^०- -ज्या निस् २, ५ :
 २१.
 †अव-या बौश्रौ ५, ८ : १†^०.
 †अव-याः^० पा ३, २, ७२; ८, २,
 ६७; माग २, ८, ४^२.
 अवे(व-इ)ष्ट, ष्टा- -†ष्टाः काश्रौ १५,
 ५, २२; आपश्रौ १८, १५, ६;
 बौश्रौ १२, १० : १५; वाश्रौ ३,

३, २, ४५; हिश्रौ १३, ५, २७;
 आमिष्ट ३, ३, २ : ५; बौपि २,
 ९, ९; शुभ्र १, ६०७.
 अवे(व-इ)ष्टि- -टौ मीस् २, ३, ३;
 ११, ४, ९.
अव/यत् अवयातयेम वाधूश्रौ ४,
 ५९^२ : ९.
अव-यव- अव/यु द्र.
अवयवर्षि- -र्षिभिः चाअ ८ :
 २.
अव/यस् > †अव-यास^०-
 †अवयास^०, †अवयासि-
 सीष्टाः^० आपमं १, ४, १४; आमिष्ट
 १, ५, ४ : ८; अप्राय ४, १;
 ऋप्रा ५, २९; शुप्रा ३, ८३;
 †अव...अयासिषम्^० द्राश्रौ ६,
 ४, ८; लाश्रौ २, १२, ९.
अ-वयस्^१- -यसि पा, पावा ५, १, ८४;
 -यसे पाग १, १२, ४.
अवयात^क- (> आवयातक- पा.)
 पाग ४, २, १२७.
२अवयास^१- (> आवयासीय^०-
 पा.) पाग ४, २, ८०.
अव/यु (मिश्रणे) > अव-यव-
 -वः निस् १, १३ : २; ४,
 ५ : १६; अपं १ : १७; या २,
 ८; -वम् निस् २, ४ : ३४;
 ८ : ४; १०, ७ : १०; १० : ११;
 १२ : ६; -वस्य निस् ६, ७ :
 १८; पावा १, ४, ३; ८, ३, ६५;
 -वाः पा ६, २, १७६; -वात्
 पा ७, ३, ११; -वानाम् पावा

१, १, ७२; ६, १, १; -वे अप्रा
 ३, २, २२; पा ४, ३, १३५; ५,
 २, ४२; पावा ४, ३, १३२; १५३;
 ६, १, ८३; पाप्रा ४, ९; -वेन
 लाश्रौ १०, ३, ३; -वेषु वाश्रौ
 ३, ४, ३, ४५; मीस् ११, २,
 १६.
 अवयव^० पावा ६, १, १.
 अवयव-ग्रहण^०- -गात् पावा १,
 १, ५१; ३, ७.
 अवयव-तत्पुरुष-त्व- -त्वात्
 पावा २, १, १.
 अवयव-त्व- -त्वात् पावा ४,
 १, ७९.
 अवयव-प्रयोग - -ग. लाश्रौ १०,
 ५, ३.
 अवयव-मात्र- -त्रात् पावा ४,
 २, १२४.
 अवयव-विधान^०- -ने पावा २,
 २, ३; ५, २, ४२.
 अवयव-षष्ठी- -ष्ठी पावा ८, ३,
 ५९.
 अवयवषष्ठ्या(ष्ठी-आ)दि-
 -दिपु पावा १, १, ४९;
 -दीनाम् पावा १, १, ४९; ६, ४,
 २.
 अवयव-संख्या-तस् (:) पावा
 २, १, १.
 अवयव-स्त्रीविषयत्व^०- -त्वात्
 पावा १, ४, ३.
 अवयवा(व-अ)न्य-त्व- -त्वात्
 पावा ४, १, ९२.

a) सपा. अवयजे <> अवरुन्धे इति पाभे. । b) पाभे. वैप १ परि. अव...यजे टि. द्र. । c) पाभे. वैप १ परि. अवयजामहे काठ ३८, १३ टि. द्र. । d) ०पु इति पाठः ? यनि. शोधः (तु. अव...इयक्ष्व इति, काठ ३५, १ प्रसू. अव...इक्ष्व इति च) । e) पाभे. वैप १ परि. अव...असृक्षत टि. द्र. । f) पाभे. वैप १ परि. अव...अदिमहि टि. द्र. । g) गस. उप. भाप. संप्रसारणाऽभावः उसं. । h) वैप १ द्र. । i) पाभे. वैप १ परि. अव...अयाट् टि. द्र. । j) तस. । k) अर्थः व्यु. च ? । आवय- इति भासडा. पागम. । l) अर्थः व्यु. च ? । m) =देश-विशेष- ? । n) षस. ।

अवयवा(व-अ)र्थ-त्व- -त्वात्
मीस् १०,३,६४.

अवयवा(व-अ)र्थवत्-त्व- -त्वात्
पावा १,२,४५.

अवयविन्- -विनि पावा ५, २,
४२.

अव/यु (अभिप्रणे), अवयौति वैश्रौ
१८,२ : ३.

अवयावयति या ९,४२.

अव-युत- -तम् कौस् ५,१२.

अव-युव(त>)ती- -ती या ४,
११.

†अ-वयुन^१- -नम् या ५,१५.

अव(व/क्)इ>†अव(व-क्)ति^१-

-तिः अत्र १२,५; अप्रा ३,४,१;

-तिम् आपथौ ९, ५, २; बौश्रौ

१४,२३ : ६; वाधुश्रौ ४,६० :

२;३; आपमं २,१२,९^१;^१ -त्या

बौश्रौ २४, १३ : ९; -त्यै

आपमं २,१२,९^१;^१

अवा(व-आ)र^१- -रम् पावा ४, २,

९३; या २,२४; -रे अप्राय ३,३.

अवारपार- | >पारीण- |

पा ४,२,९३; ५,२,११.

अवारीण- पावा ४,२,९३,

‡अवर, रा^१- पाग १, १, २७; ३,१,

२७; -रः लुस् ३,१६:१७; बौपि

२, ९, १२^१, आपथ २,१३,९;

हिध २, ३, ९; गौध ६, ११;

१४, २८; †या ७, ३०; ३१;

ऋप्रा ११,५५; -रःऽ-रः आपथ

२, २४, ४; -रम् बौश्रौ १८,

३३ : १०^१; निस् ३, ११ :

१७; गौध १४,२८; या २,२४;

अप्रा ३, ४, १^१; -रस्मिन् पा,

पावा ३, ३, १३६; -रस्य संघ

४१४; पा ५, ३, ४१; पावा २,

१, ३१; -रा बौपि २, ९, १२;

अप्रा ३,४,१^१; -राः माश्रौ १,

६,३,१; वैताश्रौ ३१, १; -रान्

आथ १, ६, १-४××; वैयुः

-राम ऋपा १४, ५०; -†रे

आश्रौ २, १९, २२; ५, २०, ६;

शाश्रौ; या १, २०^१; ११, १८;

-रेभ्यः या १, २०; -रेषाम्

द्राश्रौ १, ३, २१; लाश्रौ १, ३,

१९; गोग् २, ८, २३; -रेषु

आपथ १, ५, ४; हिध १,२,४;

-रैः †बौश्रौ ४, १ : १७; ७,

६ : २३; ऋप्रा १८,४८.

अवरी- -रीषु कागृ ३०, ३^१.

अवर-काल^१-त्व- -त्वात् पावा १,१,

६९; ३,४,२१.

अवर-तस्(ः) पा ५,३,२९.

अवर-दौर्बल्य- -ल्वात् गौध १,५.

अवर-पर^१- -रम् आपथौ १८,१८,

१५; हिश्रौ १३,६,२७.

अवर-त्रयस्^१- -यमः आपथ १,

१४,११; हिध १,४,४३; -यसम्

आपथ १, १४, २६; हिध १,४,

५५.

अवरवयली^१- -सीम् वाध ८,१.

अवर-सम- अपर-सम- द्र.

आवरसमक- पा ४,३,४९.

अवरस्तात् पा ५,३,४१.

†अवर-स्-पर^१- -राय शुप्रा ३,५१.

अवरा(र-आ)दि- -दीनाम् पावा

१,१,३४.

अवरा(र-अ)न्न-संसृष्ट- -ष्टस्य

आपथ २,१५,१५^१.

अवरा(र-अ)र्ध->०र्ध,र्ध्या^१- पा ४,

३,५; -र्ध्या^१ आपथौ १०, १४,

८^१; भागृ ३, ५ : २; कप्र २,५,

२; आपथ १,२,१६; २,२०,३;

हिध १,१,४९, -र्ध्याः आपथौ

१२, १७, ११; भाश्रौ ६, ६, ५;

द्राश्रौ ११, ३, १८; लाश्रौ ४,

३, १८; ९, ११, ४; कप्र २,३,

१४; -र्ध्यान् भाश्रौ १, २, १२;

-र्ध्येन आपथ २, ६, १४; हिध

२,२,१५.

अवरा(र-अ)वर^१- -रम् माश्रौ २,

२,२,१८.

अवरो(र-उ)क्त- -क्तम् काश्रौ १,

१०,५.

√अवर्य पा ३,१,२७.

अ-वरण^१- -णम् बौश्रौ २४, १२:

६;८.

अव-रहस- पा ५,४,८१.

२अवरा-> °रा(रा-अ)वपतन^१-

-नम् पागृ १, १६,२.

अव/रुज् > °रुज्य कौगृ ५,२,१०;

हिनि २ : १२; १३ : ४.

†अ-वरुण-ग्रह- -हाय बौश्रौ १७,

१४ : ११^१.

अवरुद्र^१- -द्रस्य चाअ १६ : १२.

a) वैप १, परि. च द्र. । b) पाभे. वैप १ परि. अरातिम् शौ २,१०,७ टि. द्र. । c) पाभे. वैप १ परि. अवद्यात् शौ २,१०,६ टि. द्र. । d) विप., सना., नाप. । शिष्टं वैप १ द्र. । e) बस. । f) वैप १ द्र. । g) स्त्री. ङीप् प्र. उर्स. (पा ४,१,२०) । h) पाभे. वृ ३४४ ८ द्र. । i) विप. (।न्यूनातिन्यून-। उपगान्, वत्स-, रात्रि- प्रसृ.) । तत्रभववीयः यत् प्र. । j) वा. क्वि. द्र. । k) पंस. । l) तस. उप. <√वृ।वरणे। m) षस. पूष. नाप. =जसमु- (तु. २अपरा-) । n) सपा. तै ६, ६,५,४ °श्राहाय इति पाभे. । o) व्यप. (ऋषि-विशेष-) । व्यु. ? ।

अव/रुघ्, अवरुद्धे, ऋधे आपश्रौ ६, १, ५; ४, १०^३; १३, ७, ७-९; बौश्रौ; अवरुणद्धि कौस् १९, ३; अप ६३, १, ६; अवरुणधते आपश्रौ २३, १, ५; २, ७; ३, १०; बौश्रौ ११, २ : २८; वैश्रौ १७, ८ : ८; हिश्रौ १८, २, १२; तैप्रा ४, ५४; भाशि ६५; †अवरुणधे^३ भाश्रौ ५, ९, १३^३; वाश्रौ १, ४, ४, ३^३; हिश्रौ ३, ४, ४२^३; भाग ३, १ : १७; १९; २१; अवरुणधताम् विध ५, १२५; अवरुणद्ध बौश्रौ १८, ४२ : ४; ११; अवारुणधत बौश्रौ १८, ३४ : ६; १६; वाधूश्रौ ३, १७ : ११-१४; अवरुणधीत बौश्रौ १८, ३४ : ८; ४२ : ९; १२; अवरुणधीय आपश्रौ ५, २, ४†; बौश्रौ १८, ३४ : १७; ४२ : १; ५; २७, १४ : १५†; अवरुणधीमहि बौश्रौ १८, ३४ : ४; १४†. अवरुणधे बौश्रौ १८, ४७ : ११; †अव...रुधत् या ५, १२; ऋप्रा २, ७४. अवरुण्यन्ते अप ६३, ३, १. अव-रुद्ध, द्वा- -द्धः शांश्रौ १४, ५०, १; कौस् १६, ३०; -द्धम् बौश्रौ १८, ३३ : ३; ४; हिश्रौ १३, ८, ४४; अप्राय ३, ८; -द्धस्य गौध १२, ३०; -द्धा आपश्रौ १९, १७, १५; बौश्रौ १४, १५ : २२; हिश्रौ २२, १, २६†; -द्धाः बौश्रौ १४, १७ : १५†; हिश्रौ १६, ५, १; आप्रिगृ २, ६, २ : १४.

अव-रुद्धि- -द्धयै आपश्रौ ५, २, ४†××; बौश्रौ. अव-रुध्य वैश्रौ २०, ४ : ३; आपध. अव-रुह्यमान- -नः बौश्रौ १६, २८ : १; ६. अव-रुह्यमान- -नाः आश्रौ ११, २, १८. अव-रोद्धुम् ऋअ २, १०, ९५. अव-रोध- -धात् मीस् ३, ४, १८; -धे आपध १, ९, २५; हिध १, ३, २६. अव-रोधन- -नम् आपध २, २८, ४; हिध २, ६, ४. अव/रुद्ध, अवरोहति काश्रौ २, ३, २५××; आपश्रौ; शांगृ ३, १, १६^३; †अवरोह आपश्रौ १६, १२, ११; बौश्रौ; अवरोहेत् बौश्रौ ९, १९ : २२; आगृ. †अवारुहत् मागृ १, १०, १७. अवरोहयति वाश्रौ ३, १, २, २१; कौस् ८०, ३; अवरोहयेत् अप ११, १, ११. अव-रुह्य आश्रौ २, ५, ६; काश्रौ. अव-रोक्ष्यत्- -क्ष्यन् आपश्रौ १८, १७, १२. अव-रोप्य आप्रिगृ ३, १०, ४ : २५; वैगृ ६, १६ : १४; गोगृ २, ४, ६. अव-रोह- पाग ५, २, १३६; -हम् द्राश्रौ १५, ४, १५; लाश्रौ ५, १२, १९. अवरोह-वत्-, अवरोहिन्- पा ५, २, १३६. अव-रोहण- -णम् आपश्रौ १९, १२,

२०; हिश्रौ २३, २, ३१; हिधि १६ : १०. अवरोहण(ण-अ)भिवादन^८- -ने वैश्रौ १७, १८ : ८. अव-रोहत्- -हन् हिश्रौ १३, ६, १५; -हन्तम् वाश्रौ ३, १, २, २२. अव-रोह्य कौस् ६१, ४. †अव-रू(प>)पा^१- -पा कौस् १३०, २. अवरोहित^९(->अवरोहितीय- पा.) पाग ४, २, ९०. अ-वर्जनीय-त्व- -त्वात् मीस् ६, ४, १८. ?अवर्जिता च रुदितम्^१ शंघ २३२. अ-वर्ण- प्रमृ. ३अ- द. अ-वर्णसंयोग^९- -गेन आपश्रौ १०, १६, ६; आपगृ ११, १७; आपध १, २, ३८; हिध १, १, ६९. अ-वर्तमान-त्व- -त्वात् पावा ३, २, १२३. अवर्ति- अव(व/ऋ) द्र. †अ-वर्त्र^{१०}- -त्रैः ऋप्रा २, ४०. अ-वर्धमान- पा ६, २, १६०; -नान् उस् ६, ७. १अ-वर्मन्^{११}- -र्मणः पा ६, ४, १७०. २अ-वर्मन्^{११}- -र्मणम् शंघ २५४. √अवर्ष्य अवर्- द्र. १अ-वर्ष^{११}->अवर्ष्य^{११}- -र्ष्याय बौश्रौ १०, ४८ : १०; वैश्रौ १९, ६ : ४१. २अ-व(र्षा>)र्ष^{११}- -र्षे भागृ २, ३० : १६. अ-वर्ष-तर्क्यै^१- -र्क्येन आपगृ २३, ८.

a) पाभे. पृ ३९५ & द्र. । b) सप्र. कौगृ ३, १, १० प्रत्यवरोहति इति पाभे. । c) द्रस. । d) विप. । बस. । e) व्यप. (ऋषि-विशेष- [तु. पागम.]) । व्यु. ? । f) पाठः ? । सप्र. स्मृश्रा. [पृ २१७] अवधुताद् अभिहतम् इति, पराशरमाधवीये [पृ ३७७] अवधुतावरुदितम् इति च पाभे. । g) तस. । h) वैप १, परि. च द्र. । i) विप. । तस. > बस. ।

!अवर्षा^१ - षः अप ५०, ४, ३;
-र्षासु अप ६५, ३, ८.
†अ-वर्षुक^२ - कः आपथौ १२, ११,
४; १३, ९, ९; बौधौ ८, ९ : २३;
वैश्रौ १६, ११ : ८; हिथ्रौ ४, २,
६९; ९, ३, १५; लाथ्रौ ६, २, ६;
निसू १, १० : १५.
अव/लम्ब, अवलम्बयेत् शैशि १४४.
अव-लम्ब^३ - म्बम् गोण १, २, २; ३.
अव-लम्बय अप ४३, ३, १.
अव/लिख, अवलिखन्ति वैगृ ६६:
२; अवलिखेत् वाण १, ७; ६, २५.
अव-लिखत् - खन् काण ३५, ११.
अव-लिख्य आपथौ १४, २३, ४;
५; वैश्रौ.
अव-लेखन- नम् आमिण ३, १०,
२ : ४; बौध १, ६, २६.
आवलेखनी^४ - नीम् कौस
३५, २८; ४९, २३^०; अशां
१५, २; -न्याः कौस ३६, १४^०.
अवलेखन-दन्तप्रक्षालन-पादप्र-
क्षालन^५ - नानि गोण ३, १, १९.
अव/लिप्, म्प, अवलिम्पति बौधौ
९, ३ : ३३; १०, ६ : १३; वैश्रौ
१३, ५ : ५; १८, ४ : ६.
अवलेपयति बौधौ ९, १ : ९;
१०, १ : ८.
अव-लिप्त, सा- सम् कौस ३९,
११; -सा बौधौ १०, १२ : ६;
वैश्रौ १८, ६ : ७; -साः बौधौ
१५, ३८ : १३^१; १८, ११ :
११.
अव-लिप्य वाश्रौ ३, ४, ४, १७.

अव/लिङ्, †अवालिङ्क्षत्^६ आपथौ
९, १७, ५; हिथ्रौ १५, ७, २५.
अवलिङ्घते शंघ १८३.
अव-लीढ- -ढम् विघ ५१, १७;
-ढानाम् शंघ १८३.
अवलीढा(ढ-अ)भिक्षित- -सेषु
आथ्रौ ३, १४, ११.
अव/लुङ् > अव-लोडन- -ने
बौधौ २८, ११ : ६.
अव-लोडय अप ४५, १, १२.
अव/लुप्, म्प, अवलुम्पन्ति बौधौ
१४, ६ : २०.
अवलुलोप बौधौ १८, ४५ : ९.
अव-लोप्य अप्राय ५, ६.
अव/लोक, अवलोकयति अप ४,
१, १९; अवलोकयन्ति गोपि १,
३, २४^१; अवलोकयेत् अप ५०,
६, ४; ६८, २, ४; शंघ ३०८;
विघ ६३, ४९; वैध ३, १, ९.
अव-लोम- पा ५, ४, ७५.
अ-वल्मीक^७ - कम् वैश्रौ १२, ४ : १;
२५, ५ : ३; आमिण ३, ५, ५ :
२; बौपि १, ४ : २; ३, २, ८.
अव/वद् > वदित्- -तृन् वाध्रुथौ
३, ७९ : १५; २१.
†अव/वघ्, अव...वध्यासम् आपथौ
१, १९, ११; भाथ्रौ १, २१, ७;
वैश्रौ ४, ६ : १३; हिथ्रौ १, ५,
४८.
अव/वा, अववाति सु ५, ५.
अव/विघ्, अवविध्यति बौधौ ९,
३ : १७.
अव-वि/सृज्, अवविसृजते काथ्रौसं

२७ : १३.
अव/वी, अववेति अप ४८, ३^१.
अव/वृज्, अववर्ज्युः बौधौ १४,
२७ : २; वैश्रौ २१, ७ : ९.
अव...अवृज्जन् आपमं २, २,
३^१.
अव/वृप्, अववर्षेत् आपथौ ९, २,
६; भाथ्रौ ९, ३, ८; भाण २, ३० :
१६.
अव-वर्षण- -णम् माथ्रौ २, १, २,
३२.
अव-वृष्ट- -ष्टः काथ्रौ २५, ११, २४;
आपथौ १०, १५, ८; माथ्रौ २,
१, २, ३६; -ष्टम् आपथौ १४,
२९, २; काथ्रौसं ३१ : ५; माथ्रौ
३, ६, १५; -ष्टस्य शांथ्रौ १३,
१२, १०; -ष्टे माथ्रौ ३, २, ८.
अववृष्ट-भक्षण- -णम् काथ्रौ
२५, १२, ५.
अव/वेप्, अववेपते कौस ५८, ११.
अव/व्ये > अव-व्ययत्- -यन्
आपथौ १६, ११, १२; हिथ्रौ ११,
४, १२.
१अ-वशा, शा^८ - शः कप्र ३, ३, ९;
-शाम् वाध १७, ५७^१.
अव/शंस > अव-शस- -शसा अन्न
६, ४५^१.
अवशास्य कौस ५०, ८.
अ-वशंगम^९ - -मम् ऋपा ४, १.
†२अ-वशा^{१०} - शा शौच १, ९७;
-शा३ शौच १, १०५.
अ-वशिन- -शिनः आपथ २, २८,
२; हिध २, ६, २.

- a) पाठः ? व० इति शोधः । b) वैप. १, परि. च द्र. । c) विप. । गस. उप. कर्तारि कृत् ।
d) विप., नाप. ([मृन्मयी-] प्रतिकृति-) । कर्मणि प्र. > तस्यविकारीयः अण् प्र. । e) अव० इति Pw. ? ।
f) द्रस. । g) पाभे. वैप १ परि. द्र. । h) विप. । बस. । i) पाभे. पृ ३९२ p द्र. ।
j) वशाम् इति संस्कृतुः शोधः ? । k) पाभे. वैप १, ७१८ b द्र. । l) नाप. (व्यजनसंधि-
विशेष-) । तस. ।

अव-शिरस्- -रसम् कौसू ५१, १९.
 अव√शिष्, अवशिनष्टि आपथ्रौ ६,
 ११, १; ७, १४, ८; माथ्रौ ६, १३,
 १××; हिगृ २, ६, १७^b.
 ऋअवशिव्यते आपथ्रौ १, २१,
 २; वौथ्रौ १, ६ : २९; माथ्रौ १,
 २२, १२; हिथ्रौ १, ५, ७६; वौथ्रु
 १२ : ६५; अवशिव्यन्ते वाथ्रौ
 ३, ४, १, ५१; आपथु ३, ६; हिथु
 १, ४५; अवशिव्यत वौथ्रौ २९,
 १२ : ६.
 अवशेषयेत् आमिगृ ३, ७, ३ :
 १०; अवशेषयेयुः आमिगृ ३, ६,
 ४ : १; वौपि १, १३ : १; २,
 १, ४.
 अव-शिष्ट,ष्टा- -ष्टः वौथ्रौ २६, १ :
 १७; माथ्रौ १, ३, १०; हिथ्रौ
 ७, ३, ७०; -ष्टम् काथ्रौ ६, ७,
 १२××; आपथ्रौ; -ष्टयोः वैथ्रौ
 १०, १९ : २; हिथ्रौ ४, ५, ९;
 -ष्टस्य आमिगृ २, ५, ११ : १९;
 मागृ २, १२, २१; वागृ १७, ५;
 -ष्टाः आपथ्रौ १७, ३, ५××;
 -ष्टान् आथ्रौ १, १८, २; १०,
 २४, १४; वाथ्रौ १, २, ४, २९;
 हिथ्रौ १४, ६, ७; वौपि ३, २,
 १२; गौपि १, २, २१; -ष्टानाम्
 आपथ्रौ १, १०, १२; १०, २५,
 १३; १२, १०, १२; १५, ८, ३;
 १७, ६, ८; आपगृ १९, १०;
 -ष्टानि आपथ्रौ १, १५, ८××;
 माथ्रौ; -ष्टाभिः माथ्रौ ६, ३,
 १२; -ष्टाम् माथ्रौ ४, १, १३;
 -ष्टायाः माथ्रौ ४, १, २०; -ष्टे
 माथ्रौ १, २४, ५; -ष्टौ वैथ्रौ १२,

१ : १५; हिथ्रौ ३, ८, ६१.
 अवशिष्ट-पर्वन्- -वोणि हिपि
 २१ : २.
 अवशिष्टे(ष्ट-इ)ष्टि-प्रधान-देव-
 ता^c- -ताभ्यः हिपि २० : १४.
 अव-शिव्य आपथ्रौ २, १२, ६××;
 वौथ्रौ.
 अव-शेष- -षः वौथ्रौ २५, ८ : ११;
 -पम् वौथ्रौ २३, २ : १७; १९;
 २६, ५ : २४; हिथ्रौ १३, ५,
 २१.
 अव-शेषित- -तम् अप ३३, २, १.
 अव-शेष्य हिथ्रौ ७, १, ६२.
 अव-शीन- अव√शै द्र.
 अव√शीय^d, अवशीयन्ते आपथ्रौ
 १८, ८, १२; वौथ्रौ १२, १ : ९;
 १०; १८, ४५ : ४०; ४३; ४६;
 हिथ्रौ १३, ३, १४; २४; अव-
 शीयताम् कौगृ ५, ५, ६.
 अव√शुष् > अव-शोषण- -णम्
 वौष १, ६, २४; ४३.
 अव√शृष् > शर्षयित्- -ता विध
 ५, २२^e.
 अव√शृ, अवशीर्येत मागृ २, १५, ६.
 अव-शीर्ण- -र्णे कागृ २७, २.
 अवशीर्ण-गव^f- -वः वौथ्रौ २४,
 १८ : १२.
 अव-शीर्यमाण- -णानि माथ्रौ १, २,
 २, ३२; वाथ्रौ १, २, ४, ६८.
 अव√श्लुत्, ऋअवश्लुत् आपथ्रौ
 ९, ४, १; माथ्रौ ९, ५, २२; हिथ्रौ
 १५, १, ७५.
 अव-शय- पाग ५, १, १३३^g; -शयम्^h
 काथ्रौ २२, १०, २२; वैगृ २, ८ :
 १०; अप २३, १३, ४; वाध ११,

४५; विध ४४, ४४; अग्र ८, १;
 वृदे १, ८०; पाग १, १, ३७;
 -श्याः शंध ३०७.
 आवश्यक- पा ५, १, १३३;
 -कः आमिगृ २, ५, ६ : २६;
 -कान् आमिगृ २, ६, ४ : १९;
 -कानि शंध १३२; -के पा, पावा
 ३, १, १२५; ७, ३, ६५.
 आवश्यका(क-आ)धमर्ष्य-
 -पर्ययोः पा ३, ३, १७०.
 अवश्य-कर्मन्- -र्माणि वाध १२,
 १७.
 अवश्य-कार्य- पाग २, १, ७२.
 अवश्य-पुत्र- (> आवश्यपुत्रक-
 पा.) पाग ५, १, १३३.
 अवश्यम्- -शयमः पावा ६, १,
 १४०.
 अव√श्यै > अव-शीन-, अव-शयान-
 पा ६, १, २६.
 अव-श्यायⁱ- -याः या २, १८;
 -येन या ८, १०.
 अव√श्रथ्, अव(श्रथाय) हिगृ १, ९,
 १०.
 अव-षट्कर्तृ- -तारः वौथ्रौ ७, ११ :
 १४.
 अव-षट्कार,रा^j- -राः आथ्रौ १,
 १२, ६; -रान् काथ्रौ ५, १०, ५;
 -रान् शंथ्रौ २, ९, ३; काथ्रौ २,
 २, ४; -रे वौथ्रौ २८, ११ : २.
 अव-षट्कारा(र-अ)तिरेक- -कात्
 काथ्रौ १, ८, ४६.
 अव-षट्कृत- -तम् वाथ्रौ १, ३, ७,
 २०.
 अव√ष्ट(<स्त)म्,म्भु पा ८, ३, ६८.
 अव-ष्टघ- -धे पा ५, २, १३.

a) विप. । बस. । b) सप्र. आमिगृ २, २, ५ : २२ अतिशिनष्टि इति पाठे. । c) कस. > षस. >
 कस. । d) वैप १, परि. च द्र. । e) अवशब्दधिता इति जीसं. । f) कस. समासान्तष् टष् प्र. (पा ५, ४, ९२) ।
 g) अवश्य-पुत्र- इति भाण्डा. । h) वा. क्वि. । i) नाप. (नीहार-) । गस. ।

अव-ष्टभ्य आश्रौ ३, १, २०; माश्रौ ५, २, ८, १६.
अवस् आश्रौ ८, १, १२; शाश्रौ १०, ७, ११; ८, ३; अश्र ९, ९; ऋप्रा १, ९६; १७, ४६; पा ८, १, ७०; पाग १, १, ३७.
अवस्-तात् बौश्रौ ८, १४ : २०^१; १४, ३० : ७; वाश्रौ ३, २, ५, ४०; ऋश्रौ ९, ३, १८; ११, ६, २९; बौश्रु ८ : १५; ९ : ४; १० : १९; २१^२; २२; २९; ३०; ११ : १३; १२ : ५; ६; १७ : १३; १४; १८ : ४; ७; २० : १८; २१^३; पा ५, ३, २९; ४१.
अवस्-, अवस- √अव् द्र.
अव-सं√स्वृ, अव...समस्वरन् आश्रौ १६, १८, ७^१६.
अवसक्थि (क>) का^१-काम विध ६८, ४९.
अव-संकुसुक^१-कः वाध १०, २७.
अव√सृज्, सृज्, अवसजति आपश्रौ १, ६, ९; वैश्रौ ३, ५ : १२.
अव-सक्त- -क्तम् बौध १, ५, ७; ८.
अवसक्त-ची(र>)रा^१-रायाम् माग २, ६, ४.
अव-सज्य गोश्रु ३, १०, २९.
अव√सद्, अवसीदति वैश्रु ६७:१०; बौध ३, ३, २२; वृद १, ९०; अवसीदत् वृदे ४, ११३; अवसीदेत् आपश्रौ २२, २१, ३; हिश्रौ १७, ७, २९; वाध १२, ४; आपध २,

२५, ११; विध ३, ७९; हिध २, ५, १९०; अव...सीदेत् वाधुश्रौ २, २० : ४.
अवसादयति अप्राय ३, २^३; वाध २३, १५.
अव-सन्न, न्ना- -न्नः आपश्रौ २२, २१, ४; -न्नम् माश्रौ ५, १, ९, ३४;
-न्नाम् आपश्रौ १०, १८, १०; माश्रौ १०, १२, ७; वैश्रौ १२, १४ : ५; हिश्रौ १०, ३, ८; -न्ने काश्रौ २३, ४, १७.
अव-साद्य- -द्यः बौध ४, ८, ९.
अव-सम्-अन्ध- -न्धेभ्यः पा ५, ४, ७९.
अव-सर्ग- प्रसृ. अव√सृज् द्र.
अव-सलवि^१-वि गोश्रु १, ४, १२; ४, ३, ६; १३; २४; २६.
अवसवि^२-वि शाश्रौ ४, ३, ७.
अवसान^३-(>आवमान- पा.) पाग ४, ३, ९३.
अव-सान- प्रसृ. अव√सो द्र.
अव-साम- पा ५, ४, ७५.
अव-साय प्रसृ. अव√सो द्र.
अव√सिच्, सृच्, अवसिञ्चति काश्रौ १६, ४, २३; २६, १, २८; माश्रौ; अवसिञ्चामि माश्रौ २, २, ३, ३३^१; अवसिञ्चेत् भागृ १, २२ : १४; हिगृ २, ३, ३; गोश्रु ३, १०, २२; द्रागृ १, ३, २८; २, ३, ४; ३, १, ११; ४, ४, १२; कौसृ ६८, ६; ७.
अव-सिक्त, क्ता- -क्तः द्रागृ १, ३, ३०; -क्तायाः गोश्रु २, २,

१५.
अव-सिच्य काश्रौ ६, ६, १२; २६, ५, १६; बौश्रौ.
अव-सिञ्चत्- -ञ्चन् काश्रौ ४, ४, ११; १८, ४, २.
अव-सेचित- -ते अप ३८, १, २.
अव-सित- अव√सो द्र.
अव√सृ, अवसारयति माश्रौ १, २, १, २८; वाश्रौ १, २, ४, २६; कौसृ ६६, २४.
अव-सार्यं कागृ २४, ११.
अव√सृज्, अवसृजति आपश्रौ ३, ६, १२; माश्रौ; हिश्रौ ३, ६, ५^१; अवसृजः आगृ २, १, ६^१; ऋवसृज शाश्रौ ३, १६, ७; कौगृ ५, ५, ४; आमिगृ ३, ६, ३ : ७; वीपि १, ११ : ६; हिपि ९ : ४; कौसृ ८१, ४४; ८२, २८; अव...सृज अप ३२, १, ७^१; ऋव(सृज) अप ३२, १, ६; कौसृ ३०, १७; अवसृजेत् आश्रौ ५, ६, ६; काश्रौ; अवसृजेयुः निसृ ५, ६ : २२.
अव-सर्ग- पाग ७, ३, ५३; -र्गः मीसृ ५, २, ८.
अव-सर्जन- >^१नी(य>)या-याः आमिगृ ३, ६, ३ : ७; बौपि १, ११ : ६.
अव-सृज्य शाश्रौ १, ६, ४; आपश्रौ.
अव-सृज्यमान- -नम् माश्रौ १, १, ३, १०; वाश्रौ १, २, २, १६.
अव-सृष्ट, ष्टा- -ष्टः^१ आपश्रौ ३, १४, ३; हिश्रौ १, २, २९; २,

a) वैप १ द्र.। b) वैप १, ४६६ b द्र.। c) नाप. (आसन-विशेष- [तु. मनुः ४, ११२])। व्यु. ?।
d) विप.। प्रास. उप. =अस्थिर-मति-, पूष. =नञ् (तु. अव-कर्ण^०)। e) विप.। वस.। f) पृ २६१ C द्र.।
g) =अव-सलवि-। प्रकरणतः प्रसवि इत्यनेन शोध्य इति C.। h) =देश-विशेष-?। व्यु. ?। i) सप्र. अवसृजति <>उत्सृजति<> उद्वासयति इति पाभे.। j) पाभे. वैप १ परि. अवसृजः ऋ १, १८९, ५ टि. द्र.। k) पाभे. वैप १ परि. अवसृष्टा ऋ ६, ७५, १६ टि. द्र.।

६, ३४; -ष्टम् माश्रौ ५, २, ६, १९; हिश्रौ ६, ३, १६; वंताश्रौ ३४, १७^६; आग्रिण् २, ५, १० : ९; -ष्टा वंताश्रौ ३४, १७^७; आग्र ३, १२, १८^७; शुभ्र २, २८६^७; साभ्र २, १२१३^७; अश्र ३, १९^७; सु २२, ४९; या १०, ७; -ष्टाः माश्रु २, ३, ७९; -ष्टासः आपश्रौ १९, ३, २.

अवसृष्टा(ष्ट-अ)मि^६ - मि^६ भाश्रौ ५, १८, ३; हिश्रौ ३, ६, ५.

अव/सृप्, अवसर्पति आपश्रौ १०, २८, ३^०; भाश्रौ १०, १९, १५;

अवसर्पन्तु हिश्रु २, ३, ११^१.

अव-सर्पन्- -र्पति द्राश्रौ ७, १, १२; लाश्रौ ३, १, १२.

अव-सृप्त- -सस्य वाश्रौ ३, ४, ५, १७.

अव-सृप्य काठश्रौ ७४; माश्रौ.

अव/स्रो, अवस्यति आश्रौ ५, ९, १०; शांश्रौ; अवस्यन्ति आश्रौ ६, ४, २; या ८, ९; ऋप्रा १०, ३; ११, २; ऋअवस्य^६ आश्रौ ४, ४, २; शांश्रौ ५, ६, २; बौश्रौ ६, ९ : १२; माश्रौ २, १, ३, १५; वैश्रौ १२, १४ : १४; अवस्येत् आश्रौ १, २, १०; शांश्रौ.

अवसाययति कौसू २१, १५.

२अव-सान^६ - नम् आश्रौ १, २, ११××; ऋआपश्रौ ६, २९, १; ९, १६, ७; १३, २५, ३; २१, ४, २; २४, २, ४९; भाश्रौ;

हिश्रु १, २८, ११^१; पा १, ४, ११०; पावा १, ४, १०९; ११०^२; -नस्य कौशि ४८; -नात् शुप्रा ४, १८३; -नानाम् अप १ : १८; २३; २९; ३१; -नानि निस् १, ७ : १; अप ५ : १२; शुप्रा ७, १; -ने आश्रौ १, २, १४××; शांश्रौ; पा ८, ४, ५६; पावा ८, ४, ४७; -नेन अप ३३, ६, ८; -नैभ्यः बौश्रु २, ८, २५; भाश्रु ३, १३ : ९; -नेषु आश्रौ ८, ३, १९; आपश्रौ १२, २७, १४; अप्रा १, १, १४.

°अवसान- -नयोः पा ८, ३, १५.

अवमान-तस् (:) आश्रौ ६, ३, ११.

अवसान-ना- -ताम् अप १:१४.

अवसान-दिन- -नात् ऋप्रा २, ७, ११.

अवमान-निवेशना (न-अ)नुचर-णा (ए-आ) निनयने (न-इ) ज्या^१ - ज्या कौसू ४३, ३^६.

अवसान-पति- -तिः माश्रौ २, ५, ५, २८; -तैभ्यः बौश्रु २, ८, २५; भाश्रु ३, १३ : ९; -०त् आपश्रौ ९, १६, ७^१.

अवसान-भू(त >)ता- -ताम् निस् ८, ११ : १०.

अवसान-लक्षण^६ - -णम् पावा १, ४, ११०; -णे पावा १, ४, ११०.

अवसान-संख्या- -ख्याः अप ५ : २.

५ : २.

अवसान-संज्ञा- >° जिन्-

-ज्ञिनि पावा १, ४, ११०.

अवसाना(न-अ)जलि^१ - -लिः ऋप्रा २, २, ३-८.

अवसाना(न-अ)र्थ- -र्थम् शुप्रा ४, १७९.

अवसानीय- -यम् हिश्रौ २१, १, १४.

अवसानै(न-ए)कदेश- -शः अप १ : १४.

अव-साय आश्रौ १, २, २७; शांश्रौ.

अव-साय- पा ३, १, १४१.

अव-साय्य बौश्रौ १४, १८ : २३; २५; भाश्रु १, ९, १३; वाश्रु ११, १६.

अव-सित- -तः बौश्रौ १२, १२ : १३; ऋत २, २, ८; -उम् ऋप्रा ६, ७; शुप्रा १, १०६; ४. ११८;

तैप्रा २१, ३; -तस्य बौश्रौ १८, ४१ : ११; -तानाम् बौश्रौ १२, ५ : २; -ते आपश्रौ ६, २९, १;

१६, १२, ८; बौश्रौ १०, १७ : ९; वैश्रौ २, ११ : १२; १८, ११ :

९; हिश्रौ ३, ८, १४; -तेऽ-ते आश्रौ ८, १३, ८; -तैः शुप्रा १, १०१.

अव-स्यै ऋप्रा १४, ६२^१.

अव-स्यत्- -स्यतः बौश्रौ ११, ९ : ८; -स्यन् शांश्रौ ७, ९, २.

अव/स्कन्द >°स्कन्द- अव-स्यन्दन- द.

a) पाठः? °ष्टाम् इति शोधः (तु. सा., c.) । b) पाभे. वैप १ परि. अवसृष्टा ऋ ६.७५.१६ टि. द. ।

c) विप. । बस. । d) सप्र. अवसृ<> उस्सृ° इति पाभे. । e) सप्र. अवसर्पति <> प्राजति इति पाभे. । f) पाभे.

वैप १ पत्त शौ १, ११, ६ टि. द. । g) पाभे. वैप १ परि. अवस्य तै १, २, ३, ३ टि. द. । h) भाप., नाप. (स्थान- । तु.

आपश्रौ ६, २९, १) । भावाधिकरणयोर् ल्युट् प्र. । i) वसा ° इति पाठः? यनि. शोधः (तु. तैप्रा ३, ७, ९, ९) j) अवसाने

(नवे गृहे) निवेशनानुचरणाऽऽनिनयनक्रमेण (श्येनदेवत्यः) याग इति कृत्वा सस. > दस. > मलो. कस. ।

k) °करणानि निनयनेज्या इति पाठः? यनि. शोधः (तु. सा । शौ ७, ४१, १ भू. ।) । l) सस. ।

अव-स्कन्ध- -क्षम् अत्राय १, ३.
 अव-स्-√कृ (विक्षेपे) > °स्-कर^१-
 -रः पा ६, १, १४८.
 अवस्करक^२- पा ४, ३, २८.
 अव/स्तम्भ, अवस्तम्भ्नाति वैताश्री
 २, ४^०.
 अवस्तात् अवस् द.
 अव/स्तु, स्तु, अवस्तुणाति वौश्री ४,
 ४ : १५; ६, २७ : ३; २८ : ३३;
 माश्री; ऋभवस्तुणामि आपश्री
 ११, १२, ५; वौश्री ६, २८ : ३४;
 माश्री १, ८, २, ९^१; २, २, ३,
 ३४; हिश्री ७, ६, २६.
 अव-स्तरण- -णम् हिश्री ७, ७, ६;
 -णात् काश्री ८, ५, २८.
 अव-स्तार- पा ३, ३, १२०; पावा
 १, ३, १०.
 अव-स्तीर्य आश्री २, ६, १०; आपश्री.
 अव-स्तृत-> °त-शरीर^३- -रः वाध
 १०, १०.
 अव-स्त्र^४- -स्त्रः माग १, ३, ६.
 अव/स्था^५, अवतिष्ठते आश्री ४, ४,
 ४×४; आपश्री; अवतिष्ठति^६
 वौश्री १२, १२:८; १३:२३; १४:
 ९; अवतिष्ठते आपश्री २, १५,
 १; १३, २, ९; माश्री २, १४,
 ८; माश्री; अवतिष्ठन्ते आपश्री
 १३, १२, १२; १८, ७, २;
 माश्री ५, २, ४, २५; वैश्री
 १६, २ : १७; हिश्री ९, १, २१;
 १३, २, ३१; अव...वतिष्ठत्^७
 आश्री ८, ३, ३३; वैताश्री ३२,

३३; ऋभव (अतिष्ठत्) शाश्री
 १२, २५, २; वौश्री १९, १० :
 १५; वृदे; अवतिष्ठत् आश्री ५,
 १, १५; आपश्री; अवतिष्ठत् कप्र
 २, ६, ७^६; ऋभवतिष्ठेथाः दाश्री
 १०, २, १३; लाश्री ३, १०, १५.
 अवतस्थे या १, १५; अवतस्थौ
 वौश्री १८, ४४ : ४^६; अव...
 स्थात् आश्री ३, ७, १५; ऋभव...
 ?अवस्थातु^८ माग १, ७ : १२; ऋभव...
 अवस्थापयति आपश्री १०, ९,
 १५×४; माश्री; अवस्थापयन्ति
 माश्री २, २, २, १३; ५, २, १२,
 २३; वाश्री; अवस्थापयेत् माश्री
 ३, ६, २०; ६, २, ५, २४.
 अव-तिष्ठत्- -ष्ठन् कौग १, ८, १४.
 अव-स्था- पाग ४, ४, ६२^१; -स्थाः
 अप ३, ३, ५; ऋभव २, ५, १९; ऋभव...
 -स्थाम् वौध १, ५, ४७;
 -स्थायाम् पा ५, ४, १४६; ६, २,
 ११५; -स्थालु अप ६८, २, ५९.
 आवस्थ- पा ४, ४, ६२.
 अवस्था-त्रया (य-आ) लमक^१-
 -काः आमिग २, ४, १२ : ९.
 अव-स्थान- -नात् शोध २६८; -ने
 आश्री १२, ४, २२.
 अवस्थान-प्रभृति- -ति द्राग १,
 ३, २५.
 अव-स्थापन- > °न-प्रभृति- -ति
 वाग १४, २१.
 अव-स्थापयित्वा वौश्री १३, २२;
 ७.

अव-स्थाप्य शाश्री ५, ६, ४; आपश्री.
 अव-स्थाप्य आश्री १, १, ४×४; शाश्री.
 ऋभव-स्थावन्^९- -वा वौश्री १०,
 ४९ : ९; आपमं २, १७, १७^१;
 -वानः वौश्री १०, ५० : २०;
 आपमं २, १७, २३.
 अव-स्थित, ता- -तः आपश्री १८,
 १७, ६×४; हिश्री; -तम् आश्री
 १०, ८, ५; आपश्री; -ता आपश्री
 १०, २२, २; हिश्री ३, ७, १६;
 -ताः हिश्री १०, ४, ३३; पावा
 १, १, ७०; -ताम् वौश्री २, २ :
 ३; -तायाम् शोध २७०; -तासु
 आपश्री १३, ५, ६; माश्री २, ४,
 ५, ६; १२; हिश्री ९, २, ११; -ते
 आश्री ४, ४, ४; माश्री १, ३, १, १;
 शोध ११३.
 अव/स्ना, अवस्नापयति कौस २६,
 १८.
 अव/स्पृ, अव...स्पः ऋभ्रा १, १०३.
 अव-स्पृ^{१०}- -०र्तः ऋभ्रा १, १०२.
 अव/स्फुर, अवस्फुरिष्यति या ५,
 १७.
 अव/स्फूर्ज, ऋभवस्फूर्जति आपध १,
 १२, ३^१; हिध १, ४, ३^२; अव-
 स्फूर्जेत् आपध १, १२, ५; हिध
 १, ४, ५^३.
 √अवस्य √अव् द.
 अव/स्यन्द> °स्यन्द- , °स्यन्दन^०-,
 °स्यन्दी^०- (> °न्दनीय- ,
 °न्दीय- पा.) पाग ४, २,
 १३८.

a) नाप. (अक्षमल- [वर्चस्क-]) । गस. उप. कर्मणि अप् प्र. (तु. पाका.) । b) = क्रिमि-विशेष- ।
 c) षत्वाऽभावः उरसं. (पा ८, ३, ६८) । d) पासे. वैप १, ७३५ II द्र. । e) विप. । बस. । f) पा १, ३, २२
 परामृष्टः द्र. । g) पर. उरसं. (पा १, ३, २२) । h) पाठः ? अवस्थात् > ता [मपु ३] इति शोधः (तु. सपा. ऋ
 ८, २०, १ उपस्थाता इति) । i) तु. पाका. । j) वस. > बस. । k) वैप १, परि. च द्र. । l)
 पासे. वैप १ परि. अवस्था मै २, १३, २१ टि. द्र. । m) वैप १ द्र. n) स्फूर्जेत् इति पाठः ? यनि. शोधः ।
 o) पागम. [पक्षे] अवस्यन्द- इति, पाका. अवस्यन्दी-, अवस्कन्द- इति ।

१ अवस्यु- ✓अव् द्र.
 २ अवस्यु^१-स्युः ऋअ २, ५, ३१, ७५;
 साअ १, ४१८; ४३९; ४४०.
 अवस्-वत्-, °न्त-नामन्- ✓अव् द्र
 अव✓स्यु, अव...स्येत् या १०, ४२१.
 अवस्त्रायति माश्रौ २, २, ३, २१;
 ५, २, १, १५××.
 अव-स्त्राव- -वः वाधुश्रौ ३, ६९;
 ४०.
 अव-स्त्रायत्- -यन् काश्रौ १९, ४,
 १४.
 अव-स्त्रावि(न् >)णी- -गी बौश्रौ
 १०, ३३ : १२.
 अव-सुत- -तम् आश्रु ४, ८, २८.
 अव✓स्वन् > अव-स्वान- -ने हिध
 १, ३, ८०^०.
 अव✓स्वृ, अवस्वरेत् लाश्रौ ७, ११,
 १२.
 अव-हत्- -हत् आश्रु ४, १०.
 अव✓हन्, अवहन्ति काश्रौ २, ४, १४;
 ४, १, ४; आपश्रौ; अवहन्ति बौश्रौ
 १०, ५५:११; १७, ३१:१२; १७;
 वाधुश्रौ ४, ७४:१२; वाश्रौ १,
 ७, ४, १४; ३, १, १, ३१; अवहन्ति
 आपमं २, १६, १२१; अवहन्तु
 आश्रु २, ४, १४^०; ऋअ...जहि
 द्राश्रौ १०, २, १३; कौसू ७०, १;
 अव (जहि) अअ १०, ४१; अवा-
 हन् या २, २१; १०, ९; अव...
 अहन् शाश्रौ ८, २५, ११^०; अव...
 हन् या १०, ९१^०; अवहन्त्यात्
 आश्रौ २, ६, ७; बौश्रौ २२, ७ :
 १; भाश्रौ ६, १६, २६.

अवहन्यते अप ६४, ८, ८.
 अव-घात- -तम् वैश्रु ४, ५ : ११.
 अवघात-योग्य- -यौ वैश्रौ ११,
 ९ : २.
 अव-घत्- -घन् माश्रौ १, २, २, १३;
 हिश्रौ १, ५, ४९; २, १, २१; कौसू
 २, ६.
 अव-हन- -तान् आश्रौ २, ६, ८;
 आश्रु १, १०, ८; -तानाम्
 आमिगृ ३, ५, २ : ११; बौपि १,
 २ : १४; हिपि २ : ५.
 अव-हृत्य आपश्रौ १६, २६, ३; बौश्रौ.
 अव-हनन- -नम् हिश्रौ ३, ८, ४२;
 विध ९६, ९१; -नान् हिश्रौ २२,
 ४, २; -ने बौश्रौ २२, ७ : १.
 अवहनन-काल- -ले आपश्रौ १२,
 ४, ८.
 अवहनन-देश- -शो हिश्रौ २, ७,
 १८.
 अवहनन-पेषण- -णे काश्रौ ५,
 ८, १४.
 अवहनना(न-आ)दि- -दि
 आपश्रौ ७, २२, १०; १०, ३१, ८;
 वैश्रौ १२, २२ : ७.
 अव-हन्तुम् गोश्रु १, ७, ४.
 अव-हन्तु- -न्त्रे वैश्रौ ४, ७ : १४.
 अवहन्त्री- -न्त्र्यै बौश्रौ १, ६ :
 २७.
 अव-हरण- अव✓हृ द्र.
 अव✓हस्, अवहसेत् विध ७१, २.
 अव✓हा (त्यागे), ऋअवाहाः आमिगृ
 ३, ६, ३ : १५; बौपि १, ११:१३.
 अव-हाय आमिगृ १, ५, १ : ६१.

अव-हित- प्रभृ. अव✓धा द्र.
 अव✓हृ, अवहरते काश्रौ १४, ४, ९;
 १५, ६, ३३; अवहरति काश्रौ १६,
 ५, १५; १८; ६, २१; वाश्रौ ३,
 २, १, २९; ३, ३, ९; पा ५, १,
 ५२; ऋअवाहरन् माश्रु १, १०, ८;
 २२, ३; वाश्रु ५, ९.
 अवहारयेत् आपध २, २६, ९;
 हिध २, ५, २०४.
 अव-हरण- -गम् काश्रौ २०, ५, १९;
 २२, ६, ३; २५, ५, ९; ७, ३५;
 १०, १४^०; १३, १८; -णान्
 लाश्रौ ५, ५, १५.
 अव-हार- पा ३, १, १४१.
 २ अव-हार^१ > °हारा(र-आ)धारा-
 (र-आ)वार्या- -यानाम् पावा
 ३, ३, १२१.
 अव-हन- -तम् या ३, २०.
 अव-हृत्य काश्रौ ३, २, २४; १५, ६,
 १५; १६, ३, ८; द्राश्रौ ३, १,
 १०; लाश्रौ १, ९, ११^१; हिगृ
 १, २, १३; १४.
 अव-हृदि^१- -हिम् या ३, ६.
 ऋअवाका^१- -कया^१ आपश्रौ १७,
 १२, ७; वैश्रौ १९, ६ : ५४; हिश्रौ
 १२, ४, १.
 अव-वाक्य-शेष^१- -वान् मीस् १, ३,
 १३.
 अववाक्यशेष-स्व- स्वम् मीस् १०,
 ८, १९; ३५.
 अव-वाग्-ज^१- -जम् शैशि ३५१.
 अवा(व-अ)ग्र^१- -ग्रम्^१ आपश्रौ २,
 ९, ६; वैश्रौ ५, ६ : १२.

a) व्यप. (ऋषि-विशेष-)। व्यु. ?। b) पाभे. पृ २६२ d द्र.। c) पाभे. पृ २६२ g द्र.। d) पाभे.
 वैप १ परि. अव...अस्तभ्नात् टि. द्र.। e) शत्रन्तं मन्यमानः दु. चिन्त्यः। f) द्रस.। g) तु. Web.।
 h) गस. उप. अधिकरणे प्र.। i) अवहुत्य इति पाठः ? यनि. शोधः (तु. द्राश्रौ.)। j) नाप. (स्त्री-)। तस.।
 k) वैप १, परि. च द्र.। l) पाभे. वैप १ परि. अवक्या मा १७, ४ टि. द्र.। m) तप. > पस.। n) तस. >
 उस.। o) बस. (तु. भाष्यम् [हिश्रौ १, ८, ७])। p) सप्र. अवागम् <> अवागम् इति पाभे.।

अवा(व-अ)ङ्गुष्ठ-जानु^a -नुभ्याम्
वैगृ ५, १३ : १७.

अवा(व/अ)च्, ङच् > अवा(व-अ)
च्, ङच्- -वाक् आपथौ १०, ७,
७; हिथ्रौ; वैताथ्रौ १९, १८^१;
-वाङ् काथ्रौ ७, ३, १; ९, १२,
४^१; आपथ्रौ ६, १९, १^१;
बौथ्रौ; माथ्रौ २, ४, १, ३५^१;
वैथ्रौ; या ५, २; -वाचः बौथ्रौ
६, २६ : १३; कौसू ४९, ६^१;
भाशि ११७; १२०; -वाञ्चम्
भाथ्रौ ३, ६, १६; माथ्रौ;
-वाञ्चा हिथ्रौ ६, ६, १७^१.

अवाची^d - -ची आमिगृ
२, ७, ९ : १४; भागृ ३, १८ :
१८; -चीम् हिथ्रौ ४, २, ६७;
६८; -च्याम् वैगृ ५, १५ : १३;
-च्यौ कौसू १०७, २^१.

अवाच्य(ची-अ)न्त^e-
-न्तम् वैगृ ५, २ : २३.

अवाक्-छिरस्^f - -रसः वैध १,
८, १.

अवाग्-अग्र^g - -ग्रम् भाथ्रौ २,
९, ४^१; कौसू ४७, १८; -ग्रेण
कौसू ४७, ४८; ४८, २२.

अवाग्-अङ्गुरि^h - -रिम् कौसू ८७,
१५.

अवाग्-दशⁱ - -शेन कौसू ८०,
१७.

अवाङ्-अग्र^j - -ग्रः आपथृ ११,
१६; आपथ १, २, ३८; हिध
१६, १, ६९; -ग्रम् बौगृ २, ५,
१७.

अवाङ्-छिरस्^f - -राः अप ५०,
४, ७; ६, ५.

अवाङ्-छेद^k - -दम् माथ्रौ ६, १,
७, २७.

अवाङ्-नाभि^l - -भि द्राथ्रौ ३,
२, २७; लाथ्रौ १, १०, २०;
-भिम् बौथ्रौ २६, २४ : १६.

अवाङ्-मुख^m - -खः या १४,
६^१; -खम्ⁿ वैगृ ४, १ : ३;
-खस्य विध ९७, ९; -खाः
अप ७०^३, ८, ५.

अवाचीन^o - -नम् आपथ्रौ ६,
१०, १०; २४, १४, १३; बौथ्रौ;
-नानि वैथ्रौ ३, ६ : ५.

अवाचीन-काशि^p - -शीन्
कौसू ८७, ८.

अवाचीन-भिर्गोचन^q - -नम्
बौथ्रौ २०, १० : १६.

अवाचीन-पाणि^r - -णिना
शाथ्रौ ४, ४, २.

अवाचीन-पाणि^s - -णिः
आपथ्रौ १, ९, १; भाथ्रौ १, ८,
७; हिथ्रौ २, ७, २३; २५; आमिगृ.

अवाचीन-पाश^t - -शम्
बौथ्रौ २०, १० : १५.

अवाचीन-हस्त^u - -स्तेन कौसू
८२, ३.

अवाचीना(न-अ)ग्र^v - -ग्राः
बौथ्रौ २०, १६ : १०; -ग्राणाम्
बौथ्रौ १५, १ : १२.

अ-वाचक- -कः जैथ्रौका २१४.
अवा(व-अ)ङ्/च्छद् > °च्छन्न- >
°ह्ना(न-अ)परपक्ष^w - -क्षः

वाधूथ्रौ ४, २८ : ३.

अ-वाच्य- -च्यः मीसू ११, ३, ४५;
-च्यम् मीसू ७, ३, १९; -च्ये
मीसू ६, ४, ३०.

अवाच्य-ता- -ताम् हिथ्रौ १७, १,
१३.

अवाच्य-त्व- -त्वात् मीसू ६, ८, ७;
१०, २, १९; ४, ३९; ११, २, ४०.

अ-वाजपेय-याजिन्^x - -जिभिः
लाथ्रौ ८, १२, २.

?अवाञ्च भैत्र १८.

अवा(व-अ)ञ्जन्^y - -नम्^z बौथ्रौ ९,
४ : २५; १७ : १२; १०, ८ :
७; १३ : १३; बौपि १, १३ :
५; हिपि १० : ८.

अवाञ्जन-पिष्ट, ष्टा- -ष्टाः बौथ्रौ
९, १ : ५; १७; १०, १ : ४;
१५; -ष्टानाम् बौथ्रौ ५, ५ : ५;
वैथ्रौ ८, १० : ८; -ष्टाभिः बौथ्रौ
९, ३ : ७; १०, ५ : ३.

अवा(व/अ)त् > अवा(व-अ)तित^{aa}-
-तः या ५, २६; -तम् या १०,
१३.

अ-वात- -ते पा ८, २, ५०.

अवाता(त-अ)भिधान- -ने पावा ८,
२, ५०.

अवादि- -अव द.

अ-वादिन्- -पाग ३, १, १३४.

अ-वाद्य^{ab} - -द्यम् आपथ्रौ २२, ६, १५;
हिथ्रौ १७, २, ६०.

अ-वाद्यमान- -नाः अप ७०^३, ११, ७.
अवा(व-अ)ङ्/घा, अवादधुः वृदे ४,
२१.

a) प्रास. > द्रस. । b) पाभे. वैप १ परि. अवाङ् तै ३, २, ५, ३ टि. द्र. । c) पाभे. वैप १ परि.
अपाङ् मै १, ५, ४ टि. द्र. । d) विप., नाप. (दक्षिणा-दिश्- [वैगृ.]) । e) विप. । बस. । f) पाभे. पृ ४०३ p
द्र. । g) वा. क्रिवि. । h) वैप १ द्र. । i) कस. । j) तस. > उस. । k) प्रास. उप. = अञ्जनसदृश-चूर्ण-
(वैत. रत्नक्षण-पेषण- इति भवत्वामो) । l) गस. उप. वर्तरि । m) = अ-वद्य- उप. । ण्यस् प्र. उत्सं. (पा ३, १,
१०१) ।

अवा(व/अ)न् (प्राणने), अवानिति
शांश्री २,९,८.

अवा(व-अ)न्तर^१- -रम् तैप्रा ४,
५२१.

अवान्तर-कोश^२- -शौ बौश्री २६,
८ : १३.

अवान्तर-दिश^३- -दिक्षु शांश्री १४,
८४,६; आपश्री १०,५, २; वैश्री
१२,४ : १०; कागृ ५७,२; बौगृ
२, ८, ३७; बौशु २१ : ४;
-दिग्भिः या २१, ४०; -दिशः
शांश्री १४, ८४, १२; १६, २८,
२; -दिशम् बौश्री १७, २९ :
६; ३० : ८; -दिशाम् शांश्री
१४, ८४, १; ६^३; द्रागृ ४, २,
२२.

अवान्तरदिक्-सक्ति^४- -क्तिम्
काश्री ५,८,२१.

अवान्तर-दिशा^५- -शाः वाधूश्री
४, ६:४; जैश्री ३ : २३; -शासु
बौश्री १५,१९ : ९.

अवान्तर-दीक्षा^६- पावा ५, १,९४;
-न्या वाधूश्री ४, ६० : १;
-आ वैश्री १९, १ : १९;
-साम् आपश्री ११, १, १३;
१८, ३; २५, २०, १; बौश्री
६, १९ : २१; ३१ : १७; ९,
१९ : १; भाश्री ११, २१, १;
१२, २, १; माश्री २, २, १, ६;
४, ७, १; वैश्री १२, २३ : १०;
२४ : ७; १४, १६ : ११; हिश्री
१०, ३, ३३; ४०; ४, ६; आमिगृ
१, २, ३ : १; बौगृ ३, ४, १;
मागृ ३, ६ : १; -शायाम्

अप्राय ३, १; -क्षायै बौश्री २१,
९ : २५; १० : २; २८, ९ : २९.

अवान्तरदीक्षा (क्षा-आ) दि-
-दिभ्यः, अवान्तरदीक्षिन्-
पावा ५, १,९४.

अवान्तर-देश^७- -शाम् शांश्री १,
६, ६; आपश्री १, ८, ८; २०, ९;
२२, २; ७, १८, १४; ८, १७, ९;
१६, १५, ८; १८, ८, १७; ९,
१७; भाश्री; -शान् आपश्री ५,
४, ४; -शान् आपश्री ८, १३, ३;
आपशु ७, ९; १३, ३; हिशु २,
५९; ४, ३५; -शे काश्री १७,
९, ४; बौश्री २०, ६ : २३; २१ :
१७; २१, ४ : १५; २२, १ : २;
गोगृ ४, ७, ३६^४; -शेषु आपश्री
११, ११, १; भाश्री.

अवान्तर-शफ^८- -फे बौश्री १०, ३ :
३; ५; वैश्री १८, १ : २७; २९.

अवान्तरे(र-इ)डा^९- -डा काश्री ६,
९, ६; माश्री ५, १, ९, ७; -डाम्
आश्री १, ७, ३; ८; ५, ६, १४;
काश्री ३, ४, ७; आपश्री ३, २, ५;
१०; ७, २६, २; २४, १४, १४;
बौश्री; -डायः आश्री २, ९, ९;
-डायै बौश्री १३, २३ : १०.

अवा(व-अ)न्तरिक्ष^{१०}- -शाय बौगृ २,
८, २६.

अवा(व/अ)प्, अवामोति आपश्री
१४, १, २; बौश्री; अवामवानि
काश्रीसं ४ : १; ६ : १०; पागृ
१, ३, १३; अवाम्पुयात् आमिगृ
२, ४, ११ : २४; गौपि; अवाम्पुयुः
विध ४४, ४५.

अवाप वृदे ७, ४४; अवाप्स्यति
बौध २, ३, ५३.

अवाप्यते लाश्री १०, ९, २; कप्र;
अवाप्यन्ते शैशि २५९.

अवा(व-आ)स,सा- -सम् विध ३,
६१; ५९, १२; -सा या ३, १०;
-सानि आपध १, ४, २९; हिध
१, १, १४८.

अवा(व-आ)प्य अप ११, २, ५; विध
३, ६६; वैध १, ७, ३.

अवा(व-आ)✓पद्, अवापद्येत काश्री
२५, २, २५.

?अवाम^{११} अप्राय ४, ११.

अ-वामरथ्य^{१२}- -थ्यम् काश्री १०,
२, २०^{११}.

अवा(व-अ)यत्- अवे(व/इ)द्.

अ-वायु^{१३}- -युषु शुप्रा ३, १२७.

अवार-, रपार-, रपारीण- अव
(व/ऋ)द्.

अ-वारित-स्थान^{१४}- -नेषु बौध ३, २,
९; ११; १२.

अवारीण- अव(व/ऋ)द्.

अ-चारुण^{१५}- -णाः काश्री ४, ५, ३.

अ-चार्ता^{१६}- -र्तायाम् बौध ३, २, ७.

अवा(व-आ)✓लम्ब^{१७}>लम्ब^{१८}- -म्बे
आपश्री १२, २५, २७; माश्री २,
३, १, २०.

अ-वालेय^{१९}- -यम् काश्री १०, २, २०^{११}.

अ-वा-विशिष्ट^{२०}- -ष्टः कअ१, १२, २.

?अवाश्टङ्ग^{२१}- -ङ्गः आपश्री १९, १६,
१६.

अ-वाश्यमान- -नम् काश्री ६, ५,
१७.

?अवाष्ठी^{२२}- -ष्ठी वाधूश्री ३, १०० : २.

a) वैप १, परि. च द्र. । b) कप्र. । c) विप. । बस. । d) मले. कस. । e) पाठः ? । सप्र.

माश्री ३, १, २४; २५ अगाम् इति पाठे. । f) तस. उप. <वामरथ- । g) तस. >कस. । h) तस. उप.
=वृत्ति- । i) तु. पृ २६६ b । j) तस. उप. <✓वलि । k) तस. उप. तृस. =वाशब्द-युक्- । l) =यज्ञ-
पात्र-विशेष- । व्यु. ? ।

अवा(व/अ)स् (क्षरणे), अवास्यति
 बौश्रौ ४, ४ : १७; वैश्रौ; अवास्य
 मागृ २, २८ : ३१^१.
 अवा (व-अ)स्य आपश्रौ ७, ९,
 १०^२ x x; बौश्रौ १४, ६ : २१.
 †अवास^३ वाधुश्रौ ३, ७७ : ३.
 अवा (व-आ) √सिच् >सिच्य
 गोगृ ४, १, ८.
 अ-वासिन्- पाग ३, १, १३४.
 †अ-वास्तु^४ -स्तु बौश्रौ १४, १९ :
 १४; १६.
 २अ-वास्तु^५ -स्तुम् अत्र १२, ५^६.
 †अवि- √अव् द्र.
 २अवि^७ - पा ५, १, ८; -नव्यः हिश्रौ
 १५, ८, ७; कौस् १३३, ३; -विः
 काश्रौ १५, १०, ३; आपश्रौ १२,
 २७, ४; १२; बौश्रौ; -विभ्यः
 वाधुश्रौ ४, ७५ : २१; ३३;
 -विभ्याम् लाश्रौ ८, ६, १५;
 -विम् काश्रौ २५, ८, १५; आपश्रौ
 १३, ५, ४^८; १४, ११, ३^९; २१,
 २३, ४; बौश्रौ; -वी बौश्रौ १५,
 २८ : १७^{१०}; -वीः आपश्रौ १८,
 ३, ४; वैश्रौ १७, ११ : ८; हिश्रौ
 १३, १, ३१; अप्राय ५, ६; -वेः
 वाश्रौ १, ६, १, ३६; द्राश्रौ ५, ४,
 २१; लाश्रौ २, ८, २१; पा ५,
 ४, २८; -व्यः अप ४६, ३, ६^{११};
 -व्याम् बौश्रौ २, ५ : १०; मागृ
 २, १, १०^{१२}.
 आविक^{१३} -कम् कौगृ १, ८, ८;
 शागृ १, १२, ८; आमिगृ; -कानि
 काश्रौ २२, ४, २२; लाश्रौ ८, ६,
 २०; -के काश्रौ २२, ४, १९;

जैश्रौ २५ : ७; विध ८७, १;
 -कैः अप १, २८, २.
 आविको (क-ऊ)र्ण^{१४}-
 -र्णानाम् हिश्रौ ७, २, ७७.
 आ(व>)वी^{१५} -वी आगृ १,
 १९, १२.
 आवी-सूत्र^{१६} -त्रम् बौगृ २,
 ५, १३; हिगृ १, १, १७; आपध
 १, २, ३६; हिध १, १, ६८.
 अवि-क- पा ५, ४, २८; पाग ५, १,
 १२८; -कः आश्रौ ३, ४, १०;
 शाश्रौ ९, २३, ४; -कौ लाश्रौ
 ८, ६, १५.
 आविक्य- पा ५, १, १२८.
 अवि-थ्या^{१७} - पा ५, १, ८.
 अवि-दू-^{१८} - पावा ४, २, ३६.
 अवि-देवता- > 'त्य- -त्यम्
 अत्र ३, २९.
 †अवि-मत्- -मान् बौश्रौ ३, २२ :
 १३; माश्रौ १, ४, ३, १९; हिश्रौ
 ६, ४, ३१; तैप्रा ९, २१.
 अवि-मरीस^{१९} - पावा ४, २, ३६.
 अवि-मिथुन^{२०} - नम् गोगृ ३, १, ५;
 -नयोः गोगृ ४, ९, १३; द्रागृ ४,
 ३, १६.
 अवि-मेघ^{२१} - घेन वाधुश्रौ ४, १९ :
 ३१.
 अवि-यूथ- -थम् बौश्रौ १८,
 ४५ : ४.
 अवि-शिरस् - रः वाश्रौ २, १, ७,
 ११.
 अवि-सोढ^{२२} - पावा ४, २, ३६.
 †अव्य^{२३} - व्ये या १४, १६^{२४};
 ऋप्रा २, ७.

†अव्य^{२५} - यम् आपश्रौ १६,
 २०, १४; हिश्रौ ११, ६, ६१;
 -ये शाश्रौ १०, १३, ५; ऋप्रा
 २, ७३.
 अ-विकथयत्- -यन् आपध १, ६,
 १३; हिध १, २, ३६.
 अ-विकर्ष- -र्षेण ऋप्रा १७, ४६; ४९.
 अ-विकल्प- -ल्पः हिश्रौ ३, ८, ७१;
 मीस् ९, ४, १८.
 अ-विकल्पयत्- -यन् निस् ५, ७ :
 २२; २४.
 †अ-विकार- पाग ६, २, १६०; -रः
 शाश्रौ ३, २०, ११; आपश्रौ ८,
 १३, ७; निस्; -रम् शुप्रा ३,
 १०; मीस् ९, ३, ५; -रात्
 आपश्रु २१, ७; हिशु; -रे मीस्
 ९, ४, १; १०, ७, २७; -रेण लाश्रौ
 ७, ११, १७; ८, ९, १४; ९, ७,
 ८; मीस् ९, ३, ११.
 अविकारा(र-अ)र्थ- -र्थम् शुप्रा ४,
 १८०.
 २अ-विकार^{२६} - रान् विध ४७, २.
 अ-विकारसदृश- पाग ६, २, १६०;
 अ-विकार्य- -र्थः विध २०, ५३.
 अ-विकृत, ता- -तः आपश्रौ २४, ५,
 १४; ६, १९; ८, १०; १४; हिश्रौ;
 -तम् बौश्रौ २९, ९ : १४; भाश्रौ
 ५, १६, ८; हिश्रौ; -तस्य बौश्रौ
 १४, ९ : १; निस् ४, १ : ९;
 -ता आश्रौ ६, १४, २४^{२७};
 शाश्रौ २, ३, १४; १०, ४; निस्
 ४, १ : १५; -ताः गौध १७,
 ३४; -तानि लाश्रौ ९, १०, ११;
 -तेन जैश्रौका १४०; -तेषु

a) पाभे. पृ २६६ k द्र. । b) पाठः? उवाच इति शोधो विमृश्यः? । c) वैप १, परि. च द्र. । d)
 विप. । तस्याव्ययीयष् ठञ् प्र. उलं. (पा ४, ३, १५६) । e) कस. । f) विप. (मिखला- प्रसू.) । तस्याव्ययीयः
 अञ्ज प्र. (पा ४, ३, १३५) । g) वस. । पूष. नाप. = ऊर्णा- । h) नाप. (यूथि-) । i) = अवि-दुग्ध- ।
 j) = यज्ञ-विशेष- । k) पाभे. वैप १ परि. अव्ये ऋ ९, १७, ४० टि. द्र. । l) विप. । वस. ।

शांश्री १४, ५७, १६; -तैः आपध १, २१, २; हिध २१, ६, ३१.	३ ^h ; भाश्री ४, ९, १; हिश्री ६, २, १२.	१४.
अविकृत-त्व- -त्वात् मीस् १२, १, ४.	अ-विकुर ^r - -रः ¹ हिश्री ४, ३, २९ ¹ .	†अ-विच्छिद् ^o - -च्छिदा आपमं २, २२, ६; हिद्य १, १४, २; भाद्य २, २७ : १६ ¹ १.
अ-विकृष्ट, ष्टा- -ष्टाः कप्र २, ३, १४; -ष्टान् ऋप्रा ३, ३०; -ष्टानाम् कप्र २, ८, १६.	अ-विख्यात- -तानि बौध ४, ३, १; ४, १.	अ-विच्छिद्य जैश्रीका १०९; द्राद्य १, ३, २२.
अ-विकृतस, सा- -सः लुस् २, १५ : ३; १६ : १२; १४; १५; -सम् क्षुस् ३, २ : १७; -सा क्षुस् ३, ९ : २; १२; -सैः क्षुस् २, १६ : १९.	अ-विख्यात-दोष ^k - -षस्य गौध २४, १.	अ-विच्छिन्दत्- -न्दन् आपश्री ७, १०, ३.
१अ-विक्रम ^a - -मम् ऋप्रा ११, ४६; -मे ऋप्रा ६, १.	अ-विख्यापित-दोष ^k - -षाणाम् वाध २५, १.	अ-विच्छिन्दती- -ती आद्य १, ७, १३; काद्य २५, ३०; वाद्य १४, १८; गोद्य २, २, ६; -तीम् कौद्य ७६, १८.
२अ-विक्रम ^b - -माः ऋप्रा १४, ३६.	अ-विगुणा(ण-अ)ङ्ग ^d - -ङ्गाः बौश्री २, ३ : ६.	अ-विच्छिन्न, न्ना- -न्म भाश्री १, १, ४; माश्री; आम्रिद्य २, ७, ४ : ९ ¹ १; बौद्य ४, ११, ३; -न्नया आद्य २, ८, १२; ९, ८; ४, ६, १४; -न्नाम् आश्री २, २, १४; वाश्री २, २, ४, ३; आद्य ४, ६, ७; कौस् ५८, १४; -न्ने वाश्री १, १, ४, २०; -न्नेन माश्री १, ६, ५, १३; वैद्य १, २१ : ७; -न्नेः माद्य १, ११, १२.
अ-विक्रान्त-दर्शन ^c - -नः याद, ३०.	अ-विग्रह ¹ - -हे ऋप्रा ४, ३९.	अ-विच्छिन्न, न्ना- -न्म भाश्री १, १, ४; माश्री; आम्रिद्य २, ७, ४ : ९ ¹ १; बौद्य ४, ११, ३; -न्नया आद्य २, ८, १२; ९, ८; ४, ६, १४; -न्नाम् आश्री २, २, १४; वाश्री २, २, ४, ३; आद्य ४, ६, ७; कौस् ५८, १४; -न्ने वाश्री १, १, ४, २०; -न्नेन माश्री १, ६, ५, १३; वैद्य १, २१ : ७; -न्नेः माद्य १, ११, १२.
अ-विक्रय- -यस्य विध ५८, १०.	अ-विग्राहम् आपश्री १४, १५, १; हिश्री १०, ७, १७; भाशि १२०.	अ-विच्छिन्न, न्ना- -न्म भाश्री १, १, ४; माश्री; आम्रिद्य २, ७, ४ : ९ ¹ १; बौद्य ४, ११, ३; -न्नया आद्य २, ८, १२; ९, ८; ४, ६, १४; -न्नाम् आश्री २, २, १४; वाश्री २, २, ४, ३; आद्य ४, ६, ७; कौस् ५८, १४; -न्ने वाश्री १, १, ४, २०; -न्नेन माश्री १, ६, ५, १३; वैद्य १, २१ : ७; -न्नेः माद्य १, ११, १२.
अ-विक्रय-विक्रय- -यः विध ३७, १४.	अ-विघात- -तः पावा १, १, ५०.	अ-विच्छिन्न, न्ना- -न्म भाश्री १, १, ४; माश्री; आम्रिद्य २, ७, ४ : ९ ¹ १; बौद्य ४, ११, ३; -न्नया आद्य २, ८, १२; ९, ८; ४, ६, १४; -न्नाम् आश्री २, २, १४; वाश्री २, २, ४, ३; आद्य ४, ६, ७; कौस् ५८, १४; -न्ने वाश्री १, १, ४, २०; -न्नेन माश्री १, ६, ५, १३; वैद्य १, २१ : ७; -न्नेः माद्य १, ११, १२.
अ-विक्रय-विक्रयिन्- -यी शंध ३७७ : २१.	अ-विघ्न- -घ्नम् आम्रिद्य २, ३, ३ : २७; वैद्य १, ७ : ३.	अ-विच्छिन्न, न्ना- -न्म भाश्री १, १, ४; माश्री; आम्रिद्य २, ७, ४ : ९ ¹ १; बौद्य ४, ११, ३; -न्नया आद्य २, ८, १२; ९, ८; ४, ६, १४; -न्नाम् आश्री २, २, १४; वाश्री २, २, ४, ३; आद्य ४, ६, ७; कौस् ५८, १४; -न्ने वाश्री १, १, ४, २०; -न्नेन माश्री १, ६, ५, १३; वैद्य १, २१ : ७; -न्नेः माद्य १, ११, १२.
अ-विकृन्ना(ज-अ)क्ष ^d - -क्षः आपश्री ५, १०, १० [†] .	अ-विचक्षण- -णः विध ६७, ४०.	अ-विच्छिन्न, न्ना- -न्म भाश्री १, १, ४; माश्री; आम्रिद्य २, ७, ४ : ९ ¹ १; बौद्य ४, ११, ३; -न्नया आद्य २, ८, १२; ९, ८; ४, ६, १४; -न्नाम् आश्री २, २, १४; वाश्री २, २, ४, ३; आद्य ४, ६, ७; कौस् ५८, १४; -न्ने वाश्री १, १, ४, २०; -न्नेन माश्री १, ६, ५, १३; वैद्य १, २१ : ७; -न्नेः माद्य १, ११, १२.
आविक्षारयत्- -यन् माश्री १, २, ३, २३; वाश्री १, ३, १, २२.	अ-विचाचलि- -लिः ^m आपश्री १४, २७, ७; हिश्री १५, ७, ८.	अ-विच्छिन्न, न्ना- -न्म भाश्री १, १, ४; माश्री; आम्रिद्य २, ७, ४ : ९ ¹ १; बौद्य ४, ११, ३; -न्नया आद्य २, ८, १२; ९, ८; ४, ६, १४; -न्नाम् आश्री २, २, १४; वाश्री २, २, ४, ३; आद्य ४, ६, ७; कौस् ५८, १४; -न्ने वाश्री १, १, ४, २०; -न्नेन माश्री १, ६, ५, १३; वैद्य १, २१ : ७; -न्नेः माद्य १, ११, १२.
अ-विक्षित ^e - > †आविक्षित- -तः शांश्री १६, ९, १४; -तस्य शांश्री १६, ९, १६.	अ-विचार- -रम् ⁿ निस् ९, ४ : ३९. अविचार-तस (:) अप १२, १, १०.	अ-विच्छिन्न, न्ना- -न्म भाश्री १, १, ४; माश्री; आम्रिद्य २, ७, ४ : ९ ¹ १; बौद्य ४, ११, ३; -न्नया आद्य २, ८, १२; ९, ८; ४, ६, १४; -न्नाम् आश्री २, २, १४; वाश्री २, २, ४, ३; आद्य ४, ६, ७; कौस् ५८, १४; -न्ने वाश्री १, १, ४, २०; -न्नेन माश्री १, ६, ५, १३; वैद्य १, २१ : ७; -न्नेः माद्य १, ११, १२.
आविक्षिति- -तयः बौश्रीप्र ४५ : ७.	अ-विचारयत्- -यन् काद्य ५, ८; विध ५, १८९; ६७, ३९.	अ-विच्छिन्न, न्ना- -न्म भाश्री १, १, ४; माश्री; आम्रिद्य २, ७, ४ : ९ ¹ १; बौद्य ४, ११, ३; -न्नया आद्य २, ८, १२; ९, ८; ४, ६, १४; -न्नाम् आश्री २, २, १४; वाश्री २, २, ४, ३; आद्य ४, ६, ७; कौस् ५८, १४; -न्ने वाश्री १, १, ४, २०; -न्नेन माश्री १, ६, ५, १३; वैद्य १, २१ : ७; -न्नेः माद्य १, ११, १२.
†अ-विक्षुर ^f - -रः ^h हिश्री ४, ३, २९.	अ-विचिकित्सा- -त्सायाः आपध १, १३, ११; हिध १, ४, २५.	अ-विच्छिन्न, न्ना- -न्म भाश्री १, १, ४; माश्री; आम्रिद्य २, ७, ४ : ९ ¹ १; बौद्य ४, ११, ३; -न्नया आद्य २, ८, १२; ९, ८; ४, ६, १४; -न्नाम् आश्री २, २, १४; वाश्री २, २, ४, ३; आद्य ४, ६, ७; कौस् ५८, १४; -न्ने वाश्री १, १, ४, २०; -न्नेन माश्री १, ६, ५, १३; वैद्य १, २१ : ७; -न्नेः माद्य १, ११, १२.
†अ-विक्षोभ- -भाय आपश्री ४, ६,	†अ-विचेतन ^o - -नानि आश्री ३, ८, १; शांश्री १२, १९, २ ^p ; या ११, २८ ^q .	अ-विच्छिन्न, न्ना- -न्म भाश्री १, १, ४; माश्री; आम्रिद्य २, ७, ४ : ९ ¹ १; बौद्य ४, ११, ३; -न्नया आद्य २, ८, १२; ९, ८; ४, ६, १४; -न्नाम् आश्री २, २, १४; वाश्री २, २, ४, ३; आद्य ४, ६, ७; कौस् ५८, १४; -न्ने वाश्री १, १, ४, २०; -न्नेन माश्री १, ६, ५, १३; वैद्य १, २१ : ७; -न्नेः माद्य १, ११, १२.
	अ-विच्छिस्ति- -स्वै वैश्री १२, १३ :	अ-विच्यव ^t - -वम् काध २८२ : ७.

a) तम. उप. = विसर्जनीय- । b) बस. उप. = विसर्जनीय- । c) = काण- । तस. > बस. । d) - तस. > बस. । e) व्यप. (तु. सा[ऐत्रा ८, २११]) व्यु. ? । f) तस. उप. ? । g) पाभे. पृ ३८३ d द्र. । h) पाभे. वैप १ परि. अविश्रोवाय काठ ३१, १४ टि. द्र. । i) सप्र. अविधुरः <> अविधुरः <> अविधुरः इति पाभे. । j) विधुरः इति पाठः ? यनि. शोधः (तु. पाभे.) । k) तस. > कस. । l) तम. उप. = अत्रप्रह- । m) पाभे. वैप १ परि. अविचाचलिः ऋ १०, १७३, २ टि. द्र. । n) वा. क्रिवि. । o) विप. । बस. । p) तु. वैप १, ५८५ g । q) अविच्छदा इति पाठः ? यनि. शोधः । r) अकारणम् इति पाठः ? यनि. शोधः (तु. बौद्य.) । s) सप्र. पीथः <> पीथाः इति पाभे. । t) तस. उप. भाप. <वि✓व्यु > वा. क्रिवि. ।

अ-विजयमान- -नाः बौध्रौ १८, ४६: ५.
 अ-विजा(त>)ता^१- -ता बौध्रौ १३, १: ७.
 अ-विजिगीषा- -षायाम् पा ८, २, ४९.
 अ-विजितिन्^२- -ती शाश्रौ १५, २७, १.
 अ-विज्ञात, ता- -तः हिग्र १, १६, ६; शंघ २८८: ३२५; -तम् हिग्र १, १६, ७; अप; आपघ १, २४, ८; हिघ १, ६, ५७^३; या १, १८^४; -तस्य विघ ३६, १; या १४, ३; -ता बौध २, २, २५; वृदे २, ११४; -ताः बौध्रौ २, १० : ३६; वाध २०, २४; -तानि या ११, २८; -ताभ्यः शांग्र २, १४, १७; -ताम् विघ १, १८; १९; -तायै बौध्रौ २१, १० : १८; -ते आश्रौ १, १२, ३३; काश्रौ २५, १, १२; १०, १३; भाश्रौ १०, १२, १२; गौध २२, १२; -तेन आपश्रौ १०, १९, ४; २०, ७, २०; २२, २१, ११; हिश्रौ १०, ३, ९.
 अविज्ञात-नामधेय^५- -यम् या ५, २१.
 अविज्ञात-प्रायश्चित्त^६- -त्ते आपश्रौ १४, १७, १; हिश्रौ १५, ५, १.
 अविज्ञात-व्याधि-मृ(त>)ता^७- -ताम् वैश्रौ १२, १४ : ७.

अ-विज्ञात- -तुः या २, ३.
 अ-विज्ञान- -नम् वाध २३, ३२. मीस् १, २, ४९; -नात् विघ २८, ५३; वृदे ७, २; -ने मीस् ६, १, ७^८; -नेन शंघ २८७.
 अविज्ञान-प्रदिष्ट- -ष्टम् वृदे ८, १३२.
 अ-विज्ञाय बौध्रौ १६, १३ : ५; विघ.
 अ-विज्ञेय- -यम् विघ ९७, १८; -यात् मीस् १, २, ३८.
 †अ-वितथ^९- -थेन वाध २, १०; विघ ३०, ४७; हिघ ९, १, १८; या २, ४.
 †अ-विथुर^{१०}- -रः^१ आश्रौ ३, १, १७; माश्रौ ५, २, ८, १६; कौस् ५६, ३.
 अविद्यया- -रश्चवि- द्र.
 अ-विदग्ध, ग्धा- -ग्धम् कौस् ६०, १८; ८३, १०; -ग्धा या ९, २६.
 अ-विदत्^{११}- -दन् कौग् २, ४, १७^{१२}; शांग्र २, ७, २०; -दन्तः कौस् ८३, २१.
 अ-विद्(द्-अर्थ)^{१३}- -र्थस्य पा २, ३, ५१.
 अ-विदल^{१४}- -लम् वाश्रौ १, २, २, ६; हिश्रौ १, ३, ३.
 †अ-विदहत्- -हन्तः आपश्रौ १, २५, १०; बौध्रौ १, १० : १२; २४, २६ : ७; भाश्रौ १, २६, ८; माश्रौ १, २, ३, ३१; वाश्रौ १, ३, १, २८; वैश्रौ ४, १० : १३; हिश्रौ १, ६, ५५.

अ-विदासिन्^{१५}- -सिनः आग्र १, ५, ५; -सिनम् आग्र २, ६, ९; -सिनि गोग्र ४, ५, २६; द्राग्र ४, १, १२.
 अ-विदित्वा वृदे ८, १३६; शुअ १, ५.
 अ-विदुष्ट-पर्या(य>)या^{१६}- -यानिस् १, १० : १७.
 अ-विदुष्ट^{१७}- -रासः तैप्रा ६, ५^{१८}.
 अ-विदूर- -पाग ५, १, १२४.
 आविदूर्ध्व- -पा ५, १, १२४; -र्थे पा ७, २, २५.
 अवि-दूस- -अविदेवता- २अवि- द्र.
 अ-विदोष- -षः लाश्रौ ६, ५, ३०; कौशि ३७.
 अ-विदोह- -हाय निस् ७, ४ : १३.
 अ-विद्ध- -द्धम् काशु ७, ११.
 अ-वि(द्या>)द्य^{१९}- -द्यः चव्यु ४, २५; -द्यस्य वाध २६, १७.
 अ-विद्यमान, ना- -नायाम् आपश्रौ १, २०, १३; बौध्रौ २०, १० : १८; २१; २५, २ : १९; हिश्रौ ५, ५, १९; बौपि ३, ७, ५; -नासु हिश्रौ ५, २, ३९; -ने शाश्रौ ३, १९, १५; २०, ९; काश्रौ; या २, १; -नेषु हिश्रौ १५, ८, ८; लाश्रौ ९, ४, २१; पाग्र १, १६, १६.
 अविद्यमान-स्व- -स्वम् पावा १, १, ७३; -स्वात् मीस् १०, ७, १६.
 अविद्यमान-वचन- -नात् मीस् १, २, ३४.
 अविद्यमान-वत् पा ८, १, ७२; पावा

a) नाप. (आर्तेष्टि-विशेष-). तस. । b) तस. उप. वि-जित-[भाप.] + इनिः प्र. उंसं. (पा ५, २, ८८) ।

c) ज्ञानम् इति पाठः? यनि. शोघः (तु. आपघ.) । d) विप. । बस. । e) विप. । कस. > तुस. । f) ष्ते इति प्रयासं. ? । g) तस. उप. =असत्य- । h) =अ-विकल- । i) पाभे. पृ ४०७ i द्र. । j) तस. उप. < √विद् [ज्ञाने] । k) अविन्दन् इति पाठः? यनि. शोघः (तु. शांग्र.) । l) तस. > बस. पूष. भाप. < √विद् [ज्ञाने] । m) विप. ([संश्लिष्टदल-] पवित्र-) । तस. > बस. । n) विप. ([अ-शुष्क-] हृद-) । तस. उप. वि/दस् [उपक्षये] + घिनुण प्र. उंसं. (पा ३, २, १४२) यद्वा < वि-दास- इति (तु. भाष्यम् [गोय.]) । o) विप. । तस. > बस. । p) वैप १ द्र. ।

६,१,२१९.	मात्र- -त्रात् द्राश्रौ ३, ३, २३;	१,४,१७.
अविद्यमानवत्-त्व- -त्वे पावा	लाश्रौ १, ११, १४.	अ-विधायक-त्व- -त्वात् मीस् १,
८,१,७२.	अविद्विषाणिन्- -णिना आग्नि १,	४,२.
†अ-विद्या- -द्या आपमं २, ५, ५;	५, ५ : १३ ^८ .	अ-विधि- -धिः पावा १, ४, ५१ ^९ ;
कागृ ४१, २३.	†अ-विद्विषावत् ^८ - -वना ^८ भाग १,	मीस् ११, २, २; -धिना आपध
अविद्या(द्या-अ)संभूति ^९ - -स्योः	२० : ७; हिगृ १, २४, ३.	१, ११, २१; १८, ३१ ^९ ; हिध १,
शुभ्रा ६, ६७.	अ-विद्वेष- -षम् अत्र ३, ३०.	३, ७१; -धिम् आपध २, १४,
अ-विद्वस्- -दुषः बौश्रौ १८, २६ :	अ-विद्यवा- -वा आपश्रौ २, ५, ९ ^{१०} ;	१३; हिध २, ३, २४; -धेः मीस्
१७; -दुषा आपश्रौ १६, २३, १;	बौश्रौ १, १२ : ३०; भाश्रौ २,	७, ४, १.
१७, १, १२; ३, ८; बौश्रौ १०,	५, ९ ^{१०} ; माश्रौ १, २, ५, ११ ^{१०} ;	अविधि-ज्ञान- -नम् याशि २, ११६.
३१ : ३; ३९ : १३; ४६ : ३६;	वाश्रौ १, ३, २, २५ ^{१०} ; हिश्रौ १,	अविधि-प्रवृजित- -तः हिध १,
माश्रौ ६, १, ७, ९; वाश्रौ २, १,	७, २१ ^{१०} ; मागृ १, ८, ३; वागृ ४,	५, ९७ ^९ .
६, १७; वैश्रौ १८, १७ : १७;	१३; १४, ८; -वाः आगृ ४, ६,	अविधि-विहित ^९ - -तम् अप्राय ३, ८.
१९, ३ : ४; हिश्रौ ११, ७, २८;	१२ ^{१०} ; कौगृ १, ७, २; ८, १;	†अ-विधुर ^{१०} - -रः ^१ आपश्रौ १०, २७,
१२, १, ९; ४३; -†दुषे आपश्रौ	शां १, ११, ५; १२, १; आग्नि १	२; बौश्रौ ३, ३१ : १०; वैश्रौ
१३, ७, ७; माश्रौ ६, १, ७, १३;	३, ७, २ : ४ ^{१०} ; मागृ १, ९, २९;	१०, ११ : २; १२, १९ : १३.
वाश्रौ २, १, ६, २२; वैश्रौ १६,	कागृ १७, १; २२, १; बौपि १,	अ-विधून्वत्- -न्वन् आश्रौ १, ११, ९;
८ : १; -†द्वांसः आपश्रौ ३,	१७ : २५ ^{१०} ; वागृ ५, २८; १५,	वाश्रौ १, ३, ३, ६; आगृ २, ५, ३.
१२, १; बौश्रौ २७, ६ : १०;	२७; कौस् ७२, १२ ^{१०} ; चात्र १ :	अ-विधृति ^१ - -तिम् काश्रौ ५, ८,
वैश्रौ २०, ३० : ८; निस् ४,	११ ^{१०} ; अत्रा ३, ४, १ ^{१०} ; -†वाम्	३०.
११ : ३१; आग्नि ३, १२, २ :	कौगृ १, ८, ६; शां १, १२, ६;	अ-विधेय- -याः शंध २६२.
९; कौस् ६७, १९; वाध ३, १२;	-वायै मागृ १, ११, ३.	अविन् ^{१०} - पाउ २, ४६.
बौध ४, ३, ६; या १४, १०;	अ-विधान- -नम् द्राश्रौ १२, २, १८;	†अ-चिनष्ट- -ष्टान् आश्रौ २, ५, २;
-द्वांसम् या १, १९; -द्वान्	लाश्रौ ४, १०, १९; पावा ३, १,	१२; आपश्रौ ६, २४, ४; भाश्रौ
आश्रौ २, २, ३ ^{१०} ; ६, २४;	७; ४, ४, ७६; -नान् काश्रौ	६, ४, ११; ६, १; हिश्रौ ६, ७,
†शाश्रौ.	१, ७, ७; ९, ५; ९, ११, १४;	२; ७; कौगृ ३, ४, ४; शां ३,
१अ-विद्विषाण- -णयोः आपश्रौ	१९, ४, ४; द्राश्रौ १२, २, १०;	६, २.
१४, २०, ४; बौश्रौ २३, ५ :	१३; लाश्रौ ४, १०, १०; १३;	अ-विनायिन्- पाग ३, १, १३४.
१४; वैश्रौ २१, ६ : ४; माश्रौ	वैताश्रौ ३, ४; याशि २, ११६;	अ-विनाश- -शः पावा १, २, ६४.
३, ७, ७; हिश्रौ १५, ५, २३;	पावा ३, १, ४८; मीस् ११, १, ३.	अविनाश-नामन् ^१ - -म या ३, २१.
-णानाम् काश्रौ २५, १४, २५.	अविधान-पर ^{१०} - -रः याशि २, ११६.	अ-विनाशिन्- > ँशि-धर्मन् ^{१०} - -र्मं
२अ-विद्विषाण ^{१०} - > अविद्विषाण-	अ-विधाना(न-अ)र्थ- -र्थाः मीस्	या १३, ११.

a) द्वस. । b) =अ-शत्रुता- । तस. उप. वि-द्विष् > भावे कानच् प्र. उसं. (पाउ २, ९१) ।

c) सप्र. षाणिना < षावता इति पाभे. । d) तस. उप. वि-द्विषा- (भाप. वि-द्विष् + अङ् प्र. उसं. [या ३, ३,

१०४]) + मतुप् प्र. । e) विप. । बस. । f) सप्र. अविधिना च प्रवृजितः < > अविधि-प्रवृजितः इति पाभे. ।

g) तृस. । h) =अ-विधुर- । i) पाभे. पृ ४०७ i द्व. । j) विप. (प्रस्तर-) । बस. उप. =दभेद्वय- ।

k) अर्थः व्यु. च ? । < √अव् इति पाउ. । l) षस. । दु. प्रभृ. ँशि-ना^{१०} इति पाठशिवन्त्यः (तु-

RNM. प्रभृ.) ।

†अ-विनिपात- -तम् कौट २, ६, ७^१; शांठ २, १०, ६.
 अ-विनिपातिन्- -तिनः आपध २, २९, ५; हिध २, ६, १८.
 अ-विनिर्दिष्ट- -ष्टम् वाश्रौ १, ४, ३, ४०.
 अ-विनिर्देश- -शे वाश्रौ १, ७, २, १३.
 अ-विनीत- -ते कौशि २५.
 अ-विन्दत्- -न्दन् हिश्रौ १५, १, ५२; ५५; ५७; ५९.
 अ-विपरिहरत्- -रन् माश्रौ १, १, ३, ४१.
 †अ-विपरीत- -तम् कौस् १२४, २; ३.
 अ-विपर्यय- -यः या ५, २६; -येण या ६, १.
 अ-विपर्यास- -सः पावा ३, १, २६.
 अ-विपश्चित्- -श्चित् कौस् ७३, १७.
 अ-विपिष्य आपश्रौ ९, ५, ३; हिश्रौ १५, २, ३.
 अ-वि-पूर्व^b- -र्वम् ऋषा १, ९२.
 †अ-विप्र- -मः शांश्रौ १८, ८, १४.
 अ-विप्रकृष्ट-काल- -ले पा ५, ४, २०.
 अ-विप्रकृष्टा (ष्ट-आख्या >) ख्य- -ख्यानाम् पा २, ४, ५.
 अ-विप्रक्रमण- -गम् आपध २, ५, ३०.
 अ-विप्रतिपत्ति- -त्तिः काश्रौ १, ४; ९.
 अ-विप्रतिपन्न- -न्ने आपध १, १, १३; हिध १, १, १२.

अ-विप्रतिषिद्ध, द्वा- -द्धः काश्रौ ४, ३, १९; मीस् ९, २, ५; -द्धम् हिश्रौ ३, १, ८; १६, १, २२^d; आपध १, १२, ६; हिध १, ४, ६; -द्धा मीस् ८, ४, १४; -द्धान् वाश्रौ १, ७, ५, १२; -द्धेन वाश्रौ ३, २, १, २२.
 अ-विप्रतिषेध- -धः लाश्रौ ६, ३, ११; पावा १, १, ६७; ४, १०८; ६, १, १३२; मीस् १, २, ४७; -धात् मीस् ३, ४, ६ × ×; -धेन शांश्रौ १३, १४, २; लाश्रौ ८, ५, १०.
 अ-विप्रमोह- -हे आश्रौ १, २, १२.
 अ-विप्रयुक्त- -क्तम् गौध ३, २०.
 अ-विप्रयोग- -गः निस् २, ८ : ६; -गस्य निस् ८, १० : ३; -गेण लाश्रौ ९, ४, ९.
 अ-विप्रवास^e- -सः कौट १, १०, २५; शांठ १, १७, १०.
 अ-विप्रोष्य^f गौध ६, ७.
 अ-विवाधक- -कम् आपश्रौ २१, १, १९^d.
 अ-विभक्त, क्ता- -क्तः द्राश्रौ ३, १, ११; लाश्रौ १, ९, १२; -क्तम् विध ९७, १९; -क्ता मीस् ४, १, ४२; -क्तानाम् विध ६, ३५; -क्तैः विध ६, ३४.
 अविभक्त-स्व- -त्वात् मीस् ४, १, २; १९; ६, ३, ४२; ६, ८; ७, १, ९.
 अविभक्त-दाय^g- -यम् वीध १, ५, ९५.
 अ-विभक्ति- -क्तौ पावा १, १, ३८.

अ-विभक्तिन्^h- -क्तिनः कौस् ६९, १
 अ-विभक्ति-निमित्त^b- -त्तस्य पावा १, १, ३८.
 अ-विभज्य माश्रौ १, २, ५, २; वाश्रौ १, ३, २, १२; हिश्रौ १५, ६, १.
 अ-विभवत्- -वति काश्रौ १२, १, १३; -वन्ति हिश्रौ १, १, ६१; ९, ८, २.
 अ-विभवर्वाⁱ-त्व- -त्वात् वीश्र १, २, ४७.
 अ-विभवन्^h- -विनः आपश्रौ २१, ३, ३.
 अ-विभाग- -गः गौध २८, ४७; मीस् ६, ६, १०^l × ×; -गात् मीस् १, ४, ९; २० × ×.
 अ-विभाग्य- -ग्याः लाश्रौ ७, ७, १०; -ग्यानाम् लाश्रौ ६, १०, १; ७, ७, ३१.
 अ-विभ्रंशिन- -शि काश्रौ ७, १, ११; गीश्र ४, ७, २.
 अ-विभ्रान्त- -न्तम् अप १, ३१, २.
 अवि-मत्- -मवि- द्र.
 अविमत्त^j- > ^oत्त-कामविद्ध^k- -द्धाः^l पाग ६, २, ३७.
 अ-वि-मनस्^b- -नाः आपध १, ६, १३; हिश्रौ १६, २, ३६.
 अवि-मरीस-, ^oमिथुन- २अवि- द्र.
 अ-विमुक्त- -क्तः आपश्रौ १०, २९, १०; वीश्रौ ६, १६ : १८; भाश्रौ १०, २०, १७; वैश्रौ १२, २१ : ९; हिश्रौ ७, ३, ४२.
 अविमुक्त-च(क्र) ^oक्रा^m- -०क्रे पाठ १, १५, ८^a.

a) विनिपातम् इति पाठः ? यनि. शोधः (तु. शांठ.) । b) तस. > बस. । c) पाभे. पृ २८८ f द्र. । d) सप्र. अविप्रतिषिद्धम् <> अविबाधकम् इति पाभे. । e) तस. उप. <वि-प्र/बस [निवासे] । f) विप. । बस. । g) विप. (उद्येष्ट-) । तस. उप. वि-भक्त-> इनिः प्र. उंसं. (पा ५, २, ८८) । h) तस. उप. वि-भव-> मत्वर्थायः इनिः प्र. । i) अविघातः इति प्रयासं. । j) व्यप. । व्यु. ? । k) द्रस. । l) बहु. > अविमक्ति-कामविद्ध- (तु. पाका.) । m) विप. (नदी-) । बस. [तु. Old. राजा; वैतु. जयरामगदाधरौ ०क्रे- (विप. [तीर-] > -क्रे इति)] ।

अ-विमुच्य हिश्रौ ७,३,३१.
 अ-विमुञ्चत्-ञ्चन् बौध २,७,३.
 अवि-मेघ- रञ्चवि-द्र.
 अ-विमोचन- -नाय बौध १,५,२९;
 हिष्ट १,२४,४^b; -ने गौध २१,
 १९.
 अवि-यूथ- रञ्चवि-द्र.
 अ-वियोगि(न् >)नी- -न्या कप्र २,
 १०,३.
 अ-विरत- -ता: लाश्रौ ८, ६, २८;
 -तेभ्य: काश्रौ २२,४,२५.
 ?अविराजः^० आश्रौ ८,१४,४^फ.
 अ-विराट्-संपन्न^१- -न्ना: लाश्रौ
 १०,३,९.
 अ-विराम- -मे पावा ३,२,१२३.
 अ-विरुज्य भाश्रौ ३, २, ९; वैश्रौ ६,
 १० : १२; हिश्रौ २,३,२.
 अ-विरुद्ध,द्धा- -द्धम् काश्रौ ५, ११,
 २५; बौश्रौ २८, १३ : ५; शांश्रु
 ४,४,१५; मीस् १,२,४४; ३,५;
 -द्धा मीस् १०, १, ३०; -द्धा:
 गौध ११,२२.
 अ-विरोध- -ध: आपथ १, २३, ६;
 हिध; -धम् आपथौ ११,९,
 १०; -धात् काश्रौ २, ६, २८××;
 पागु; -धे काश्रौ १,८,७.
 अ-विरोधिन्- -धि कप्र १, ३, ३;
 गौध ३,१०; -धी वैध ३,७,१३.
 अ-विरोह- -हेषु अप ७२,३,९.
 अ-विलम्बित,ता- -त: काश्रौ १०,

१,७; कप्र १, ७, ३; ३, १, ५;
 -तम् लाश्रौ ६,१०,१८; -ताम्^०
 तैप्रा २३,२४; कौशि ६७.
 अविलम्बित-स्थान^१- -ने काश्रौ
 १०,१,९.
 अ-विलोप- -प: दाश्रौ ८, ४, २८;
 लाश्रौ ४, ८, २३; निस् ७, ५ :
 १२; १०, ८ : ३०.
 अविलोप-कारण^१- -ग: ऋप्रा ११, २.
 अ-विवक्षित-त्व- -त्वात् पावा १,
 २, ६८; ४, २३; २४; ४, १, ८२.
 अ-विवदिष्णु- -ष्णु आगु २, ७, २.
 †अ-विवाक्य^१- -क्यम् आश्रौ ८, १२,
 १०; शाश्रौ १०, १२, १; काश्रौ
 १२, ३, २२; आपथौ २१, ९, १;
 बौश्रौ १६, ६ : ४; २३, ११ : १;
 वाश्रौ ३, २, १३; हिश्रौ १६,
 ४, ३; १८, ३●३:१६; -क्यस्य
 पावा ७, ३, ६६; -क्ये आश्रौ
 १२, ७, १२; आपथौ २१, २३,
 ४; बौश्रौ २३, ११:१; वाश्रौ ३,
 २, ३, ४०; हिश्रौ १६, ८, ८; १३.
 अ-विवाद-प्रति(ष्ठा >)ष्ठ^१- -ष्ठात्
 शांश्रु ६, ६, १६.
 अ-विवाह- -ह: बौश्रौप्र २ : २, ३; ५;
 ५ : ५; १६ : ३; १९ : ९; ४४ :
 ९; -हेन बौध १, ५, ८२.
 अ-विविच्य बौश्रौ ३, १० : १०.
 अ-विवृद्धि- -द्धौ मीस् १०, ४, १८.
 अ-विवेक- -क: आश्रौ ३, १४, २९;

-कम्^१ आपथौ १, ७, १०;
 भाश्रौ १, ७, ५; हिश्रौ २, ७, १३.
 अ-विवेचम् आश्रौ २, ६, ७.
 अ-विवेचयत्- -यन् माश्रौ १, १,
 २, ४.
 ?अविशङ्काम्^१ बौषि ३, ११, २.
 अ-विशब्दन- -ने पा ७, २, २३.
 अ-विशय^क- -ये मीस् ८, ३, ३२.
 अ-विशस^१- -शाशाशाश्रौ ८, २१, १^फ.
 अ-वि-शाखा^म- -खया बौश्रौ ४, ६;
 ३९; ६३; -खाभि: बौश्रौ ११,
 ४ : २३; १५, २९ : १९; -खाम्
 बौश्रौ २, ८ : ३; २२; ४, १ : ४;
 ७ : १८.
 अ-विशायिन्^क- -पाग ३, १, १३४.
 अवि-शिरस् रञ्चवि-द्र.
 अ-विशिष्ट,ष्ठा- -ष्ट: मीस् १, २, ४०;
 ७, २, १३; -ष्टम् आपथ २, २७,
 ५; हिध; पावा २, २, २३; ३, १,
 २६; -ष्टा या ३, ८; मीस् २, ३,
 ११.
 अविशिष्ट-त्व- -त्वात् पावा ६, १,
 १६; मीस् ३, ५, १७××.
 अ-विशिष्य बौश्रौ १७, २० : ४;
 २२ : ४; २६, १८ : १७; १९ :
 ७; २५ : ७; २७ : २०.
 अ-विशीर्ण-ब्रह्मचर्य^१- -र्य: वाध ७,
 ३.
 अ-विशुद्ध-धर्मा(म-आ)चरित^१-
 -ते बौध ४, २, १४.

a) सपा. आगु १, १४, ७ निविष्टकका इति, आपथं २, ११, १२; १३ बौध १, १०, ११ भागु १, २१ : ८
 हिष्ट २, १, ३ विवृत्तकका: इति च पाभे. । b) छन्दोदशा अविमुक्तये इति Böht [ZDMG ५२, ८५] शोध-प्रस्ताव: ।
 c) पाठ: ? अधिराज- >-ज: इति शोध: (तु. वैप १ परि. अधिराज: तै १, ३, ७, २ टि.) । d) विप. । तस. >
 त्स. । e) उप. =त्रुतिविशेष- । f) विप. । बस. । g) वैप १, परि. च द्र. । h) विप. । बस. > बस. । i) वा.
 क्निवि. । j) पाठ: ? विशङ्कम् (क्निवि.) इति शोध: (तु. R.) । k) तस. उप. <वि/शी । l) तस. उप. <
 वि/शस् [हिंसायाम्] । m) विप. (वपाश्रपणी-) । तस. > बस. (तु. सप्र. अ-विशाला- [वाधूश्रौ २ पृ १६५],
 एक-शूला- [आपथौ ७, ८, ३ प्रमृ.], एक-शृङ्गा- [माश्रौ १, ८, ३, २६ प्रमृ.], शाखा- [कागु ५१, ११] इति समानार्थानि
 प्राति.) । n) तस. > कस. > त्स. ।

न-विशेष- -वः वैश्रौ ११, ७ : १० ;
 ऋपा १३, ४३ ; पावा १, ४, २३ ;
 -षात् काश्रौ १, १, ३ ; ७ ; ३, ३० ;
 ८, १६, ४४ ; आपश्रौ ; पावा १, १,
 ३८ ; ५० ; ६७ ; २, २ ; २, १, ३६ ;
 ५१ ; ३, २, ५६ ; ३, १३२ ; ४, ७७ ;
 ६, ३, ३३ ; ८१ ; मीस् १०, ३, ४ ;
 २९^१ ; -वे पा ४, २, ४ ; -षेण
 आपश्रौ ५, ४, ४ ; हिश्रौ ; या
 ३, ४^१ ; पावा १, १, ५७ ; २, ३९ ;
 २, १, १ ; ३, ३, १३ ; ४, १, ९० ;
 ६, ३, २४ ; पाप्रवा.
 अविशेष-चोदन^b- -ना लाश्रौ ९,
 ७, ३.
 अविशेष(ष-ऋ)र्तु-काल^c- -लेन
 कौस् १४१, ३३.
 अविशेष-वचन^d- -नात् पावा २, १,
 २९ ; ३, २, ११०.
 अविशेष-विधान^e- -नात् पावा १,
 ४, २१.
 अविशेष-श्रुति- -तेः काश्रौ ७, ५,
 २२.
 अविशेष-स्थान^f- -नौ ऋत २, २, १.
 अविशेष(ष-आ)घ्नान^g- -नात्
 लाश्रौ ८, १, ९.
 अविशेष(ष-अ)र्थ-संबन्ध^h- -न्घान्
 मीस् ५, ३, ३०.
 अविशेष(ष-उ)पदेशⁱ- -शात्
 काश्रौ २, ६, १३ ; ५, ४, २७ ; ६,
 १, १९ ; ९, ५, २५ ; १०, १, १० ;
 १६, ७, १५ ; १९, ६, ७.

अ-विशेषण- -णम् पावा ३, १, ४५ ;
 -णे पावा १, १, ५६.
 अविशेषण-स्व- -स्वात् पावा ८, ३,
 ७९.
 अ-विशेषित- -तम् ऋश्च १, २, ३ ;
 -ते विध ६, ४२.
 अ-विशेष्य- -प्यम् वृदे १, २०.
 अ-विशोधन- -नात् विध ११, ९.
 अ-विशो(ष्य >)ष्या¹- -प्याः बौश्रौ
 १९, १० : ४.
 अ-विश्व-वि(ञ >)ञाम्^k- -ज्ञाम्
 अत्रा २, ३, १६^१.
 १अविष- √अव् द.
 २अविष^l- -षम्^१ आपश्रौ ४, २,
 १ ; बौश्रौ १, २० : २५ : २, १८ :
 १७ ; भाश्रौ ४, २, ३ ; वाश्रौ १,
 ३, ७, १२ ; ४, ४, २१ ; हिश्रौ १,
 २, ५. ●
 अ-विषम, मा- -माः हिश्रौ ११, ५,
 १८ ; -मे कौश्रौ १, ४, १ ; शाश्रु
 १, ८, १४.
 अ-विषादिन्- -दी वैध ३, ७, २ ;
 भाशि ११३ ; १२०.
 अ-विषायिन्¹- -पाग ३, १, १३४.
 अ-विषिञ्चत्- -ञ्चन् आपश्रौ १, १६,
 ८ ; बौश्रौ १, ४ : २३ ; ८, ९ :
 २५ ; भाश्रौ १, १८, ६ ; वैश्रौ ४,
 ३ : ४ ; १६, ११ : १२ ; भाश्रु १,
 ३ : ३.
 अ-विषुवत्क^d- -त्काः लाश्रौ १०,
 १४, ९ ; -त्कानि निस् १०, ९ :

२४.
 अ-विष्टा(व >)वा^k- -वाः लाश्रौ ६,
 २, ४.
 अ-विष्टा(ष्ट-अ)ष्ट-पञ्च-मणि-भिन्न-
 च्छिन्न-च्छिद्र-सुव-स्वस्ति-
 क- -कस्य पा ६, ३, ११५.
 √अविष्य, अविष्यत्- √अव् द.
 अ-विष्यन्दयत्- -यन् आपश्रौ १,
 १३, १०.
 अविष्यु- √अव् द.
 अ-विष्वञ्च- -प्वञ्चम् आपश्रौ ३,
 ७, ३^१.
 अ-विसमाप्त- -से अप्राय ५, ६.
 अ-विसर्पिन्- -र्षी भाशि ११३.
 अ-विस्त्, स्त्राग्-दा(र >)रिन्^m-
 -रि बौश्रौ २५, ५ : २ ; हिश्रौ १०,
 १, २१ ; बौषि १, ४ : १ ; हिषि
 १ : ३.
 अ-विस्त्जत्- -जन् काश्रौ ३, ४, ५ ;
 ९, ४, २८ ; बौश्रौ २०, ६ : २५ ;
 -जन्तौ काश्रौ ९, १०, ६.
 अ-विस्त्प्र-हिङ्गा(र >)राⁿ- -रा
 द्राश्रौ ३, ४, २४ ; लाश्रौ १, १२,
 १०.
 अ-विस्तर^o- -रम् अत्र ४२, २, १२.
 अ-विस्पष्टार्थ¹- -र्थाः या १, १५ ;
 १६.
 अ-विस्त्रस्य बौश्रौ २०, १२ : २ ; हिश्रौ
 ९, ४, २८.
 अ-विहरत्- -रन् आश्रौ ८, २, २५.
 अ-विहित, ता- -तः अप ३०, १, २ ;

a) विशे^o इति पाठः ? यनि. शोधः (तु. जीसं. प्रसृ.) । b) तृस. । c) कस. > षस. । d) विप. ।
 बस. । e) कस. > तृस. । f) विप. (अविष्टका-) । तस. । g) वैप १ द. । h) वैप १, परि. च
 द. । i) पाभे. वैप १ परि. २ अविष्व- > -षम् टि. द. । j) तु. BPG. । तस. । k) विप. । बस. उप.
 < वि √ स्तु । l) सप्र. अविष्वञ्चम् <> न विष्वञ्चम् इति पाभे. । m) विप. ([विप्रकृष्टदरणरहित-] देवयजन-) ।
 अर्थः व्यु. च ? । बौश्रौ. °स्त् इति पाठः । तस. > कस. (विस्त्, स्त्राग् इति क्विवि. [तु. भवस्वामी]) । यद्वा ष्दरि-
 इत्यभिमतं बस. उप. भाप. द. । सप्र. आग्निगृ ३, ५, ५ : १ असुतहार्यम् इति पाभे. । n) विप. (स्तोत्रिया- [ऋञ्-]) ।
 तस. > बस. । o) तस. उप. वि √ स्तु > भावे अण् ।

आपध १,२०,१४; हिध १, ६, २८; -तम् आपध १,११, २०; हिध १,३,७०; -ता आपध १, २०,१०; हिध १,६,२४.	अवीर-ता- -ता ऋप्रा २,४०फं.	अ-वृक्ष ^h - -क्षम् लाश्री १, १,१४.
अ-विहृत,ता- -तः बौश्री २, ५, २४ ^h ; आमिष्ट २, ४, ५ : १७; -तम् शांश्री १७,१४,३; -ताः शांश्री १२, ६, १२ ^b ; -तान् ^c आश्री २,५,२; १२; आपश्री ६, २४,४; हिश्री ६,७,२; ७; कौष्ट ३,४,४; -तेषु हिश्री ९,३,३८.	अवीर-स्त्री ^k - > ष्नी-सुवर्णकार-सपत्न-पतित ^l - -तानाम् विध ५१,११.	अ-वृजिन ^m - -नान् माष्ट १, १२,४फं.
अ-विहृत,ता- -तः बौश्री २, ५, २४ ^h ; आमिष्ट २, ४, ५ : १७; -तम् शांश्री १७,१४,३; -ताः शांश्री १२, ६, १२ ^b ; -तान् ^c आश्री २,५,२; १२; आपश्री ६, २४,४; हिश्री ६,७,२; ७; कौष्ट ३,४,४; -तेषु हिश्री ९,३,३८.	अवीर-त् ^d - -रते ऋप्रा २,४०फं.	अ-वृत् ⁿ - -तः बौश्री ९, १८, २८; कौष्ट ३, ११, ६; शांष्ट ४, १२, ७; वाध १२, ४२; गौध ९, ५४; -ताः वैश्री २१,१६ : ८.
अ-विहृत,ता- -तः बौश्री २, ५, २४ ^h ; आमिष्ट २, ४, ५ : १७; -तम् शांश्री १७,१४,३; -ताः शांश्री १२, ६, १२ ^b ; -तान् ^c आश्री २,५,२; १२; आपश्री ६, २४,४; हिश्री ६,७,२; ७; कौष्ट ३,४,४; -तेषु हिश्री ९,३,३८.	अ-वीर-ह(त्या>)त्य ^m - -त्यम् आपश्री ५,२७,१; भाश्री ५, १८,१; हिश्री ३,६,५.	?अवृता-दुग्ध ^o - -ग्धम् काश्रीसं ३६ : १०.
अ-विहृत,ता- -तः बौश्री २, ५, २४ ^h ; आमिष्ट २, ४, ५ : १७; -तम् शांश्री १७,१४,३; -ताः शांश्री १२, ६, १२ ^b ; -तान् ^c आश्री २,५,२; १२; आपश्री ६, २४,४; हिश्री ६,७,२; ७; कौष्ट ३,४,४; -तेषु हिश्री ९,३,३८.	अ-वीर-हन् ^p - -घ्न ^q आश्री २, ५, १७; आपश्री १६,१६, ४; वैश्री १८, १४ : १५; हिश्री ६,७,८; कौष्ट ३, ४, ३; शांष्ट ३, ५, ३; हिष्ट १,२९,२; -हणौ बौश्री ६, १५ : २७; माश्री २, १,४,२७; -हा बौश्री ६,१७ : १२; आमिष्ट २, १, १ : १७; हिष्ट २, २, ७; माष्ट १,२२ : १८.	१अ-वृत्त,त्ता ^r - -त्ता वाश्री ३, २, ३, १२; -त्तान् वाश्री ३,२,३,२०.
अ-विहृत,ता- -तः बौश्री २, ५, २४ ^h ; आमिष्ट २, ४, ५ : १७; -तम् शांश्री १७,१४,३; -ताः शांश्री १२, ६, १२ ^b ; -तान् ^c आश्री २,५,२; १२; आपश्री ६, २४,४; हिश्री ६,७,२; ७; कौष्ट ३,४,४; -तेषु हिश्री ९,३,३८.	अ-वीर-हन् ^p - -घ्न ^q आश्री २, ५, १७; आपश्री १६,१६, ४; वैश्री १८, १४ : १५; हिश्री ६,७,८; कौष्ट ३, ४, ३; शांष्ट ३, ५, ३; हिष्ट १,२९,२; -हणौ बौश्री ६, १५ : २७; माश्री २, १,४,२७; -हा बौश्री ६,१७ : १२; आमिष्ट २, १, १ : १७; हिष्ट २, २, ७; माष्ट १,२२ : १८.	२अ-वृत्त ^s - -त्तस्य शंध ४२९.
अ-विहृत,ता- -तः बौश्री २, ५, २४ ^h ; आमिष्ट २, ४, ५ : १७; -तम् शांश्री १७,१४,३; -ताः शांश्री १२, ६, १२ ^b ; -तान् ^c आश्री २,५,२; १२; आपश्री ६, २४,४; हिश्री ६,७,२; ७; कौष्ट ३,४,४; -तेषु हिश्री ९,३,३८.	अ-वीर-हन् ^p - -घ्न ^q आश्री २, ५, १७; आपश्री १६,१६, ४; वैश्री १८, १४ : १५; हिश्री ६,७,८; कौष्ट ३, ४, ३; शांष्ट ३, ५, ३; हिष्ट १,२९,२; -हणौ बौश्री ६, १५ : २७; माश्री २, १,४,२७; -हा बौश्री ६,१७ : १२; आमिष्ट २, १, १ : १७; हिष्ट २, २, ७; माष्ट १,२२ : १८.	अ-वृत्ति ^t - -त्तिः गौध २१, १५; -त्तौ आपध १, १८, ६; हिध १, ५, ७६; गौध १२,४५.
अ-विहृत,ता- -तः बौश्री २, ५, २४ ^h ; आमिष्ट २, ४, ५ : १७; -तम् शांश्री १७,१४,३; -ताः शांश्री १२, ६, १२ ^b ; -तान् ^c आश्री २,५,२; १२; आपश्री ६, २४,४; हिश्री ६,७,२; ७; कौष्ट ३,४,४; -तेषु हिश्री ९,३,३८.	अ-वीर-हन् ^p - -घ्न ^q आश्री २, ५, १७; आपश्री १६,१६, ४; वैश्री १८, १४ : १५; हिश्री ६,७,८; कौष्ट ३, ४, ३; शांष्ट ३, ५, ३; हिष्ट १,२९,२; -हणौ बौश्री ६, १५ : २७; माश्री २, १,४,२७; -हा बौश्री ६,१७ : १२; आमिष्ट २, १, १ : १७; हिष्ट २, २, ७; माष्ट १,२२ : १८.	?अवृथम् ^u भाशि ५५.
अ-विहृत,ता- -तः बौश्री २, ५, २४ ^h ; आमिष्ट २, ४, ५ : १७; -तम् शांश्री १७,१४,३; -ताः शांश्री १२, ६, १२ ^b ; -तान् ^c आश्री २,५,२; १२; आपश्री ६, २४,४; हिश्री ६,७,२; ७; कौष्ट ३,४,४; -तेषु हिश्री ९,३,३८.	अ-वीर-हन् ^p - -घ्न ^q आश्री २, ५, १७; आपश्री १६,१६, ४; वैश्री १८, १४ : १५; हिश्री ६,७,८; कौष्ट ३, ४, ३; शांष्ट ३, ५, ३; हिष्ट १,२९,२; -हणौ बौश्री ६, १५ : २७; माश्री २, १,४,२७; -हा बौश्री ६,१७ : १२; आमिष्ट २, १, १ : १७; हिष्ट २, २, ७; माष्ट १,२२ : १८.	अ-वृद्ध,द्धा ^v - -द्धम् पा ६, २, ८७; -द्धात् पा ४,१,१६०; २,१२५; -द्धाभ्यः पा ४, १, ११३; -द्धे या ४,१५.
अ-विहृत,ता- -तः बौश्री २, ५, २४ ^h ; आमिष्ट २, ४, ५ : १७; -तम् शांश्री १७,१४,३; -ताः शांश्री १२, ६, १२ ^b ; -तान् ^c आश्री २,५,२; १२; आपश्री ६, २४,४; हिश्री ६,७,२; ७; कौष्ट ३,४,४; -तेषु हिश्री ९,३,३८.	अ-वीर-हन् ^p - -घ्न ^q आश्री २, ५, १७; आपश्री १६,१६, ४; वैश्री १८, १४ : १५; हिश्री ६,७,८; कौष्ट ३, ४, ३; शांष्ट ३, ५, ३; हिष्ट १,२९,२; -हणौ बौश्री ६, १५ : २७; माश्री २, १,४,२७; -हा बौश्री ६,१७ : १२; आमिष्ट २, १, १ : १७; हिष्ट २, २, ७; माष्ट १,२२ : १८.	अ-वृद्धि ^w - -द्धिः जैश्रीप २०.
अ-विहृत,ता- -तः बौश्री २, ५, २४ ^h ; आमिष्ट २, ४, ५ : १७; -तम् शांश्री १७,१४,३; -ताः शांश्री १२, ६, १२ ^b ; -तान् ^c आश्री २,५,२; १२; आपश्री ६, २४,४; हिश्री ६,७,२; ७; कौष्ट ३,४,४; -तेषु हिश्री ९,३,३८.	अ-वीर-हन् ^p - -घ्न ^q आश्री २, ५, १७; आपश्री १६,१६, ४; वैश्री १८, १४ : १५; हिश्री ६,७,८; कौष्ट ३, ४, ३; शांष्ट ३, ५, ३; हिष्ट १,२९,२; -हणौ बौश्री ६, १५ : २७; माश्री २, १,४,२७; -हा बौश्री ६,१७ : १२; आमिष्ट २, १, १ : १७; हिष्ट २, २, ७; माष्ट १,२२ : १८.	अ-वृष्टि ^x - -ष्टेः अप ६५,३,६.
अ-विहृत,ता- -तः बौश्री २, ५, २४ ^h ; आमिष्ट २, ४, ५ : १७; -तम् शांश्री १७,१४,३; -ताः शांश्री १२, ६, १२ ^b ; -तान् ^c आश्री २,५,२; १२; आपश्री ६, २४,४; हिश्री ६,७,२; ७; कौष्ट ३,४,४; -तेषु हिश्री ९,३,३८.	अ-वीर-हन् ^p - -घ्न ^q आश्री २, ५, १७; आपश्री १६,१६, ४; वैश्री १८, १४ : १५; हिश्री ६,७,८; कौष्ट ३, ४, ३; शांष्ट ३, ५, ३; हिष्ट १,२९,२; -हणौ बौश्री ६, १५ : २७; माश्री २, १,४,२७; -हा बौश्री ६,१७ : १२; आमिष्ट २, १, १ : १७; हिष्ट २, २, ७; माष्ट १,२२ : १८.	अवृष्टि-भय-द् ^y - -दाः अप ६१, १,६.
अ-विहृत,ता- -तः बौश्री २, ५, २४ ^h ; आमिष्ट २, ४, ५ : १७; -तम् शांश्री १७,१४,३; -ताः शांश्री १२, ६, १२ ^b ; -तान् ^c आश्री २,५,२; १२; आपश्री ६, २४,४; हिश्री ६,७,२; ७; कौष्ट ३,४,४; -तेषु हिश्री ९,३,३८.	अ-वीर-हन् ^p - -घ्न ^q आश्री २, ५, १७; आपश्री १६,१६, ४; वैश्री १८, १४ : १५; हिश्री ६,७,८; कौष्ट ३, ४, ३; शांष्ट ३, ५, ३; हिष्ट १,२९,२; -हणौ बौश्री ६, १५ : २७; माश्री २, १,४,२७; -हा बौश्री ६,१७ : १२; आमिष्ट २, १, १ : १७; हिष्ट २, २, ७; माष्ट १,२२ : १८.	अवृष्टि-शस्त्र-भय ^z - -यम् अप ७२, ४,५.
अ-विहृत,ता- -तः बौश्री २, ५, २४ ^h ; आमिष्ट २, ४, ५ : १७; -तम् शांश्री १७,१४,३; -ताः शांश्री १२, ६, १२ ^b ; -तान् ^c आश्री २,५,२; १२; आपश्री ६, २४,४; हिश्री ६,७,२; ७; कौष्ट ३,४,४; -तेषु हिश्री ९,३,३८.	अ-वीर-हन् ^p - -घ्न ^q आश्री २, ५, १७; आपश्री १६,१६, ४; वैश्री १८, १४ : १५; हिश्री ६,७,८; कौष्ट ३, ४, ३; शांष्ट ३, ५, ३; हिष्ट १,२९,२; -हणौ बौश्री ६, १५ : २७; माश्री २, १,४,२७; -हा बौश्री ६,१७ : १२; आमिष्ट २, १, १ : १७; हिष्ट २, २, ७; माष्ट १,२२ : १८.	अवृष्ट्या(ष्टि-आ)श(ङ्का>)ङ्क ^{aa} - -ङ्कम् कौसू १२६,१.
अ-विहृत,ता- -तः बौश्री २, ५, २४ ^h ; आमिष्ट २, ४, ५ : १७; -तम् शांश्री १७,१४,३; -ताः शांश्री १२, ६, १२ ^b ; -तान् ^c आश्री २,५,२; १२; आपश्री ६, २४,४; हिश्री ६,७,२; ७; कौष्ट ३,४,४; -तेषु हिश्री ९,३,३८.	अ-वीर-हन् ^p - -घ्न ^q आश्री २, ५, १७; आपश्री १६,१६, ४; वैश्री १८, १४ : १५; हिश्री ६,७,८; कौष्ट ३, ४, ३; शांष्ट ३, ५, ३; हिष्ट १,२९,२; -हणौ बौश्री ६, १५ : २७; माश्री २, १,४,२७; -हा बौश्री ६,१७ : १२; आमिष्ट २, १, १ : १७; हिष्ट २, २, ७; माष्ट १,२२ : १८.	अ-वृष्टिकाम ^{ab} - -मस्य आश्री ७,११,

- a) अवहृतः इति संस्कर्ता । b) उप. =संमिश्रिता- इति भाष्यम् C. च । c) पाभे. वैप १ परि. अविहृतान् टि. द्र. । d) वैप १ द्र. । e) नाप. (रजस्वला-स्त्री-) । व्यु. ? <√अव् इति पाठः, <अ + √वी इति (तु. अ-व्यती-) PW. प्रभृ. । f) नाप. (नरक-विशेष-) । व्यु. ? <√अव् इति पाठभो., अ + वीचि- (=सुख-तरङ्ग-) > बस. इति शक. । g) विप. (स्थाली-) । तस. । h) विप. । वस. । i) विप. । उस. । j) सप्र. माश ११, ५, १, ३ अवीरः, अजनः इति पाभे. । k) कस. पूव. पुंवद्भावाभावः उंसं. (पा ६,३,३४) (अपतिपुत्रा- [तु. मनुः ४,२१३]) । l) द्रस. । m) बस. वा. क्वि. । n) सपा. षनः <> षनी इति पाभे. । o) षे वीरंहि इति पाठः ? षेऽवीरह्नी इति शोधः (तु. आपमं. प्रभृ.) । p) तस. । q) तस. उप. <√वृ षरणे) । r) षस. । पूव. =न व्रतार्हा- (गो-) । पाठः ? व्रताहुं इति शोधः । s) तस. उप. भाप. (जीविका-) <√वृत् । t) पाठः ? अवृथम् (<√वृथ्) इति शोधः (तु. आपमं २,४,१४) । u) विप. । पंस. > उस. । v) द्रस. > पंस. ।

७; ११, १०, ७; माश्रौ २, ३,
३, १९; वाश्रौ २, १, २, ३१;
हिश्रौ ७, ७, १४.

अवे(व√इ), अवायन्ताम् अत्र ११,
१००.

अवैति शाश्रौ ३, १४, १९; ८, ९,
१०; आपश्रौ ९, ४, ४०; बौश्रौ
१३, ३३ : ४; १४, १३ : ९;
माश्रौ ९, ६, ९; हिश्रौ २२, ५,
१३; अव (एति) या ७, २३०;
अवयन्ति आपश्रौ ८, ७, १४;
१९, ४, ६; बौश्रौ १७, ४५ : ७;
२९, ११ : २२; भाश्रौ ८, १०,
६; हिश्रौ ५, २, ६३; ३, ४८;
१३, ८, ३८; १४, ५, ७; निस्
७, ३ : ९; अवैतु पाश्रौ १, १६,
२०; अवैयात् बौश्रौ २१, ३ : ६,
२४ : २०; २३, १६ : २०; २५,
२ : १५; अवैयुः बौश्रौ २३,
१९ : ४५.

अ(व>)वा-य(त् >)ती- -ती
ऋषा ९, २३.

अवे(व-इ)त्य हिपि १ : ४; आपध
१, २४, २२; हिध १, ६, ७०.

अवे(व-इ)त्य- -त्यम् वेज्यो २७.

अवै(व-ए)त्यत्- -त्यन् आपश्रौ १३,
१९, १०; बौश्रौ १४, १३ : १०;
वैश्रौ १६, २४ : १.

अवे(व√इ), अअव (ईमहं) आश्रौ
६, १३, ७; शाश्रौ.

अवे(व√इ)क्ष्, अवैक्षते शाश्रौ ४, ८,
१; काश्रौ २, ७, ८; ३, ८, ११××;
आपश्रौ; अवैक्षति कौस् ६४, २;
अवैक्षते आपश्रौ २, ६, ६; ७,
१७, २; भाश्रौ २, ६, ११; वैश्रौ

५, ४ : ४; हिश्रौ १३, ६, १५;
अवैक्षन्ते आपश्रौ १२, १८,
१६××; काठश्रौ; अवेक्षे शाश्रौ
२, ८, ९^b; आपश्रौ^c १, २१, ७;
३, १९, ७; ६, ६, ६; बौश्रौ १,
१२ : ३८^d; ३, २५ : ४; भाश्रौ
२, ६, ६; माश्रौ १, २, २,
३१^e; ५, १२^e; २, ३, ७, १;
वाश्रौ १, १, ५, १७; २, ४,
६७^f; ३, २, २५^f; वैश्रौ ४,
८ : १०^f; हिश्रौ १, ५, ९०^f;
माश्रु २, २, ९^f; अवैक्षत् शुभ्र ३,
१४३; अवैक्षत् आश्रौ १, १३,
४××; काश्रौ; अवैक्षत् गोग्र ३,
२, ३४; ५, १३; जैश्रु १, १९ :
२५; कप्र ३, ९, ९; अवैक्षेरन्
आश्रौ ६, १२, ४; दाश्रौ ३, ४,
१९; १४, ३, ३; लाश्रौ १, १२,
४; ५, ७, २.

अवैक्षयति काश्रौ २, ७, ४; ९, ७, ८;

बौश्रौ; अवैक्षयेत् बौश्रौ २०, १० :

९; ११; १२; २८ : २२; गोग्र

२, ७, ९; कौस् १५, ९.

अवे(व-ई)क्षण- -गम् आश्रौ ५, ६,

८; काश्रु ४७, ४; अप ८, २, ५;

-णे बौश्रौ २०, १० : २७; २८ :

२२; २१, २ : १७; २३, ३ :

२९.

अवैक्षण-प्रभृति- -तिना हिश्रौ

८, २, १८.

अवैक्षण-संग्रहण^g- -णौ बौश्रौ

१५, २० : १५.

अवे(व-ई)क्ष(त् >)न्ती- -न्तीम्

द्राश्रु २, २, २७^h.

अवे(व-ई)क्षमाण, ण- -णः बौश्रौ १०,

२२; ४; २२, ४ : २०; पाश्रु; -णम्

बौश्रौ २, ८ : १४; आश्रु ३, १२,

१०; -णाः आपश्रौ १२, १७,

५; बौश्रौ; -णाम् भाश्रु १, २१ :

११; -णौ आपश्रौ ७, १७, १;

भाश्रौ ७, १३, ४; हिश्रौ ४, ३,

५४.

अवे(व-ई)क्षयत्- -यन् जैश्रु १,

७ : ७.

अवे(व-ई)क्षयित्वा बौश्रौ २५, ११ :

११××; आश्रु.

अवे(व-ई)क्षित, ता- -तः अप १३,

३, १२; -तम् बौश्रौ २०, १० :

२३; २७××; -ताभिः शंघ

५६.

अवे(व-ई)क्षित्वा बौश्रौ २०, १० :

२६.

अवे(व-ई)क्ष्य आश्रौ ३, ९, ४; ४,

७, ४; शाश्रौ.

अ-वेद्- -वेटः शुषा ३, ४९.

? अवेदयेत् वाश्रौ ३, २, ४, १०.

अ-वेद-विद्- -वित् माश्रु २, ९,

१००; बौध २, ६, ३३; -विदि

विष ९३, ७.

अ-वेदविहि(त् >)ता- -ताम् विध

५१, ६६.

अ-वेदिⁱ- -दिः काश्रौ १५, १०,

८.

अ-वेला- -लायाम् दाश्रौ १२, ३, ३,

लाश्रौ ४, ११, ६; निस् ८, ७ :

२३.

अवे(व-इ)ष्ट- , ष्टि- अव/यज् द.

अ-वैगुण्य- -ण्यात् काश्रौ १, ६,

१४; मीस् ६, ३, २२; -ण्ये मीस्

२१, १, १५.

a) पाभे. वैप १ पति. अवैतु शौ १, ११, ४ टि. द्र. । b) सप्र. तां १, ५, ३ अवपइयामि इति पाभे. ।

c) पाभे. वैप १ प्रतीक्षे का २, ३, ४ टि. द्र. । d) द्वम. । e) °क्षतीम् इति पाठः? यनि. शोषः । f) विप. ।

बस. । g) तस. > उस. ।

अ-वैदेशी^a- इया शाश्रौ १३, २४, १४.

अ-वैद्य^b- घाः गौध २८, ३२; -घे गौध ५, ३५; -घेभ्यः गौध २८, ३१.

अवैद्य-स्व- -स्वात् मीस् ६, १, ३७.

अ-वैयाकरण- -णाय या २, ३.

अ-वैर-हृत्य^c- -त्याय अत्र ६, २९; अर्प ३ : ३५.

अ-वैद्य^d- -इयस्य काश्रौ १४, १, १.

अवैद्यत्- अवे(व/इ) द्र.

अवो(व/उ)क्ष्, अवोक्षते माश्रौ १, ७, ३, २२; ८, ४, १३; अवोक्षति आपश्रौ ५, ९, १; १५, १५, १; वीश्रौ; अवोक्षेत् वीश्रौ १०, ४ : १०; आपश्रु १४, १४; १५; १८, १; हिध २, १, ४०^e.

अवो(व-उ)क्षत्- -क्षन् वीश्रौ १७, ३१ : २०; वीश्रु २, ७, २४; वीपि १, ११ : ८.

अवो(व-उ)क्षित- -ते आपश्रौ १५, २, ५; माश्रौ ११, २, १३; माश्रौ.

अवो(व-उ)क्ष्य आपश्रौ १, ७, १३ × ×; वीश्रौ.

अवो(व/उ)द् > अवो(व-उ)द- > अवोद(द-ए)घो(घ-उ)घ्न-प्रथ-हिमप्रथ^f- -थाः पा ६, ४, २९.

अवोष^g- (> अवोषीय-, अवोष्य-पा.) पाग ५, १, ४; -षाय कौस् ११६, २^h.

अवो(व/ऊ)ह् (प्रापश्रौ), अवोहेत् हिश्रौ ४, २, ६७; ६८.

अव्य- रअवि- द्र.

अ-व्यक्त, क्त- -क्तः आश्रौ ११, १, ४; शाश्रौ १६, २०, ३; वीश्रौ ९, १८ : १२; विध २०, ५३; शैशि १६०; पाशि २७; याशि १, २६; मीस् ३, ५, ३४; ७, ५२; ८, ३२; -क्तम् द्राय १, १, १८; शंघ १६६ : ६७; विध ९६, ९६; या १४, ३; २४; तैप्रा १७, ८; शैशि २०७; याशि १, २८; २, ८०; -क्ताः शैशि २६; पाशि २९; -क्तान् माशि १२, ८; -क्ताय वैध ३, १०, ४; -क्तासु मीस् ८, १, १६; -क्ते आश्रौ २, १४, २५.

अव्यक्त-स्व- -स्वान् मीस् ८, ४, १०. अव्यक्त-निधनⁱ- -नानि विध २०, ४८.

अव्यक्त-लिङ्ग^j- -ङ्गः वाध १०, १८. अव्यक्त व(री)र्णा^k- -र्णा बृदे ३, ९; या ८, १०.

अव्यक्त-वाच्^l- -वाचः या ११, २९. अव्यक्त-होमा(म-अ)भ्याधानो-(न-उ)पस्थान^m- -नानि आश्रौ १, ११, १२.

अव्यक्ता(क्त-आ)दिⁿ- -दीनि विध २०, ४८.

अव्यक्ता(क्त-अ)नुकरण^o- -णस्य पा ६, १, ९८; पावा १, १, ६५; -णात् पा ५, ४, ५७.

अ-व्य(वि-अ)ग्र^p- -ग्रः आपध २, ४, ९; २१, २; हिध २, १, ६२; ५, ११०; -ग्रम् अप ७०, १, १; कौशि ४७.

अ-व्य(वि-अ)ङ्ग, ङ्गा^q- -ङ्गः माय २, ६, ३; -ङ्गम् काश्रौ ६, ३, १९; काठश्रौ ५२; विध ३, ७०; -ङ्गा काश्रौ ७, ६, १२; -ङ्गान् माय २, १४, २४.

अव्यङ्ग-दर्शन^r- -नम् अप १, ३१, ७.

अ-व्यच्चस्^s- -चसः कौस् १३९, १०^t.

अ-व्यञ्जन^u- -नम् याशि १, ३९.

अ-व्यञ्जना(न-अ)न्त^v- -न्तम् तैप्रा २२, १५.

अ-व्यतिक्रम- -मः आपध २, १३, २; हिध २, ३, २.

अ-व्यतिक्रामत्- -मन्तः माश्रौ २, २, २, ६.

अ-व्यतिचार- -रः आश्रौ २, ३, ६.

अ-व्यतिरेक- -कः मीस् १, १, ५; -कान् लाश्रौ १०, ३, १४; पावा १, ३, १; ५, २, ९४; मीस् ६, ३, १२; ८, ३, १३.

अ-व्यतिपक्त- -क्तौ आपश्रौ २, १२, ८.

अ-व्यतिषङ्ग^w- -ङ्गम् आपश्रौ १५, ८, १०; माश्रौ ११, ८, १४.

अ-व्यतिषजत्- -जन् वीश्रौ २१, ५ : २८; २१ : २५; -जन्तः वीश्रौ ११, ४ : १५; १५, २८ : २२; १७, १४ : १८.

अ-व्यतिहरत्- -रन् गोश्रु ४, ७, ३५.

अ-व्यतिहारम्^x माश्रौ २, ४, १, ३६.

अ-व्य(व >)ती^y- -त्यै ऋप्रा २, ४०^z.

अ-व्यत्यस्यत्- -स्यन् निस् ३, ११ : १९.

a) तस. उप. ? विदेश-> भावे प्यञ् प्र., स्त्री. ङीष् च (तु. c.); वैतु. आनर्तीयः बस. उप. भवेऽर्थे प्र. इति। b) तस. उप. विद्या-> [तद् वेदेत्यर्थे] अण् प्र. [पा ४, २, ५९]। c) वैप १ द्र.। d) तस. उप. = वर्य-विशेष-। e) सपा. अवोक्षेत् <> प्रोक्षेत् इति पाभे.। f) द्रस.। g) अर्थः व्यु. च?। h) = पिपी-लिका-राज- इति M.W. ?। i) विप.। बस.। j) कस. > द्रस.। पूष. = अविहित-विशेष-। k) तस. > बस.। l) बस. उप. = रभ्यञन-। m) तस. वा. किंवि.। n) वैप १, परि. च द्र.।

अन्यत्यादघत्- -घत् माश्रौ १, २, ६, ९.

अन्य(था>)थ^१- -थम् हिश्रौ १७, २, ४९^१.

†अन्यथमान, ना- -नम् हिष्ट १, २३, १; -ना काश्रौ १६, ४, २०^०; आपश्रौ ४, ७, २^३; बौश्रौ १०, ३१ : २; माश्रौ ४, १०, १-३; हिश्रौ ६, २, १७^३; तैप्रा १२, ७; -नाम् आपश्रौ १७, १, १२; बौश्रौ १०, ३९ : १४; माश्रौ ६, २, १, ११; वाश्रौ २, २, १, ८; वैश्रौ १९, ३ : २; हिश्रौ १२, १, ९^१।

†अन्यथा- -थायै काश्रौ १५, ६, १७; आमिष्ट २, ७, ३ : ३^०; ३, १०, ३ : ११^०.

१अन्यथि- -थ्यै आपश्रौ १४, २६, २^१।

२†अन्यथि^१- -थयः अप ४८, ९३; निघ १, १४.

अन्यथिन्- पा ३, २, १५७.

अन्यथिष- पाउ १, ४९.

अन्यथिषे^१ माश्रौ १, ८, ५, ११^१.

†अन्यथिष्यै^१ आश्रौ ७, २३, ९; माश्रौ ७, १८, ५; २०, २; वैश्रौ १०, १८ : ८; हिश्रौ २, ७, ३९; ४, ४, ७७; पा ३, ४, १०.

अन्यथ्य- -थ्यम् आपश्रौ २२, ६, ४^१.

अ-व्य(वि-अ)न्-ईक्षमाण^१- -णाः आश्रौ ५, ३, २०.

अ-व्य(वि-अ)न्त^१- -न्तम् आपश्रौ २, १५, १; माश्रौ २, १४, ८; वाश्रौ १, ३, ४, १७; १८; वैश्रौ ६, ४ : ४; हिश्रौ २, १, ४०.

अन्यपदेश- -नाः आपध २, ८, १३; हिश्रौ २, १, ११५; -शे पावा ६, १, ९.

अन्यपवर्ग-गति^१- -तेः पावा १, २, ६४^१.

अन्यपवृक्त- -क्तस्य पाप्रवा ४, ९.

!अन्यभिमेथिकाः निम् ८, ७ : १४.

१अन्यय- २अवि- द्र.

२अन्यय^१- -य विध १, ५५; -यः वृदे ३, ३०; -यम् आमिष्ट २, ६, ५ : १९; बौगृ २, ९ : १६; भागृ ३, १५ : २८; या १४, ११; पा १, १, ३७; ४, ६७; २, १, ६; पावा ६, २, १३०; -यस्य पावा ७, ४, ३२^१; -याः कप्र २, १, ६; विध ५५, १५; -यात् पा २, ४, ८२; ४, २, १०४; पावा २, ४, ८२; ४, २, १०४^२; ३, २४; -यानाम् शौच २, ४८; ४, ७१; पावा १, ४, २१; २, २, २४; ६, ४, १४४; -यानि माश्रौ ५, २, ९, ४५; अप्रा ३, १, २; -ये पा ३, ४, ५९; पावा ६, २, २; -येन अप्रा ३, २, ७; पा २, २, २०.

अन्यय-तीररूपोत्तरपदो (द-उ) दीच्यग्राम-कोपध-विधि^१-

-धेः पावा ४, २, १०४.

अन्यय-त्व- -त्वम् पावा २, ४, ८१; -त्वात् पावा २, २, २४; ३, २, ५६; -त्वे पावा १, १, ४१.

अन्यय-दिक्शब्द-गो-महत्-स्थूल-मुष्टि-पृथु-वल्स^०- -स्तेभ्यः पा ६, २, १६८.

अन्यय-निर्देश- -शात् पावा ३, २, ८४.

०अन्यय-निष्ठा^० पा २, ३, ६९९.

अन्यय-प्रतिषेध- -धः पावा १, २, ४७; २, १, २; -धे पावा २, ३, ६९.

०अन्यय-प्रतिषेध- -धः पावा ६, ३, ६०.

अन्यय-सर्वनामन्^०- -म्नाम् पा ५, ३, ७१.

अन्यया(य-आ)सन्ना(ज-अ)द्वारा(र-अ)धिक-संख्या^०- -ख्याः पा २, २, २५.

अव्ययी/√ > अव्ययी-भाव^१- -वः वृदे २, १०५; पा १, १, ४१; २, १, ५; ४, १८; पावा १, ४, ५६; -वस्य पावा १, १, ४१; -वात् पा २, ४, ८३; ४, ३, ५९; पावा २, ४, ८३; ४, ३, ५८; -वे पा ५, ४, १०७; ६, २, १२१; ३, ८१; -वेन पावा ६, ३, ७८.

अव्ययीभाव-द्विगु-द्वन्द्व-तत्पुरुष-बहुव्रीहि-संज्ञा^१- -ज्ञाः पावा ५, ४, ६८.

a) विप। बस।। b) सप्र. अन्यथम् < > अन्यथ्यम् इति पाभे.। c) पाभे. वैप १ परि.

अपघमाना तै ४, १, ६, ३ टि. द्र.। d) णा इति पाठः? यनि. शोधः। e) ष्थायै इति पाठः? यनि. शोधः

(तु. तैत्रा २, ७, १६, १)। f) नाप. (अश्व-)। बस.। g) उप. √व्यथ् + सेन् प्र. (पा ३, ४, ९)। h) सप्र.

अन्यथिषे < > अन्यथिष्यै इति पाभे.। i) = विविधम् ईक्षमाण-। j) विप. (अविगतान्त-] तृण-)।

तस. > बस.। k) तस. > तृस. व्यपवर्गेण (भेदेन) गतिः। l) विप., नाप. (पारिभाषिक-संज्ञा-)। m)

दु. पासि.। n) द्रस. > षस.। o) द्रस.। p) = समास-विशेष-। q) द्रस. > मलो. कस.।

अव्ययीभावो (व-उ) पमान- द्विगु-कृत्लोप ^a - -पेषु पावा १,४, १.	१,३८; -तेषु माश्रौ ५,२, १२, २९.	अ-व्याधित- -तम् आगृ ३, ७, १; कौसू २७,१०.
अ-व्य(र्थ>)र्था- -र्थाः वाध १९, २०.	अ-व्यवानम् माश्रौ ५, १, ३, ११; वाश्रौ ३,२,५,१२ ^b .	अ-व्यापत्ति- -त्तिः ऋषा ४,३८.
अ-व्यवकिर(त् >)न्ती- -न्ती हिश्रौ १,५,९१.	अ-व्यवाय- -यः द्राश्रौ १, २, २१; लाश्रौ १,२, १५; १०, ११, ४; निस् ४,२ : २४; १०,७ : २७; मीसू ११, १, ५६; -यम् द्रागृ १,१, २७; -यात् काश्रौ ८, ८, ५; मीसू ५, १, ३१; ३, १७; -येन आपश्रौ ७, २, १२; १६, २७, १३; वैश्रौ १८, १९ : २१.	अ-व्यापन्न,ज्ञा- -ज्ञः बौश्रौ २०, २५ : २६; -ज्ञम् आमिगृ ३,७, ३ : ८; बौगृ ४, ९, ६; बौपि २,१,३; -ज्ञया बौश्रौ १७,५० : १२; -ज्ञाम् बौश्रौ २०, १ : ४८; ४९; ५२; आमिगृ ३, ७, ३ : ९; बौपि २,१,३.
अ-व्यवच्छिन्दत्- -न्दन् बौश्रौ १, १५ : २०.	अ-व्यवायत्- -यन् हिश्रौ ११, ७, ५९.	अ-व्यापृत- -तम् हिश्रौ ८,४, ११.
अ-व्यवच्छिन्न- -ज्ञम् शांगृ ६,३,१०; -ज्ञाः बौश्रौ २४,१२ : ५.	अ-व्यवेन- -तम् ऋषा ५,५६; -ताः बौश्रौ २३,९ : १८; २१; -तान् निस् १०, ४ : ११; -तानाम् अं १ : ३; -तानि बौश्रौ २५, २ : ७; १०; शौच १, ९८; -ते बौश्रौ २४,३० : ६; -तेन ऋषा ११,१६; -तेषु लाश्रौ ७,७, ६; अप १ : ३३.	अ-व्याप्त,सा- -सम् विध २३, ४३; -साः बौध १,५,५७.
अ-व्यवच्छिन्न-दीर्घा(र्षे-अ)र्चिस् ^b - -र्चिः अप २१,७,२.	अ-व्यवेन- -तम् ऋषा ५,५६; -ताः बौश्रौ २३,९ : १८; २१; -तान् निस् १०, ४ : ११; -तानाम् अं १ : ३; -तानि बौश्रौ २५, २ : ७; १०; शौच १, ९८; -ते बौश्रौ २४,३० : ६; -तेन ऋषा ११,१६; -तेषु लाश्रौ ७,७, ६; अप १ : ३३.	अ-व्यायत्- -तम् ऋषा १४, ४९.
अ-व्यवच्छेद- -दे लाश्रौ १०, ३, १८.	अ-व्यवेन- -तम् ऋषा ५,५६; -ताः बौश्रौ २३,९ : १८; २१; -तान् निस् १०, ४ : ११; -तानाम् अं १ : ३; -तानि बौश्रौ २५, २ : ७; १०; शौच १, ९८; -ते बौश्रौ २४,३० : ६; -तेन ऋषा ११,१६; -तेषु लाश्रौ ७,७, ६; अप १ : ३३.	अ-व्यायत्- -तम् ऋषा १४, ४९.
अ-व्यवचनयत्- -यन् आपश्रौ ११, ६, ३.	अ-व्यवेन- -तम् ऋषा ५,५६; -ताः बौश्रौ २३,९ : १८; २१; -तान् निस् १०, ४ : ११; -तानाम् अं १ : ३; -तानि बौश्रौ २५, २ : ७; १०; शौच १, ९८; -ते बौश्रौ २४,३० : ६; -तेन ऋषा ११,१६; -तेषु लाश्रौ ७,७, ६; अप १ : ३३.	अ-व्यायत्- -तम् ऋषा १४, ४९.
अ-व्यवचयत्- -यन् द्राश्रौ १,२, २९; १४, १, १७; लाश्रौ ५, ६, १; -यन्तः आश्रौ ३,६, २३.	अ-व्यवेन- -तम् ऋषा ५,५६; -ताः बौश्रौ २३,९ : १८; २१; -तान् निस् १०, ४ : ११; -तानाम् अं १ : ३; -तानि बौश्रौ २५, २ : ७; १०; शौच १, ९८; -ते बौश्रौ २४,३० : ६; -तेन ऋषा ११,१६; -तेषु लाश्रौ ७,७, ६; अप १ : ३३.	अ-व्यायत्- -तम् ऋषा १४, ४९.
अ-व्यव(स्त>)स्ता ^c - -स्ता आश्रौ ४,९,४.	अ-व्यवेन- -तम् ऋषा ५,५६; -ताः बौश्रौ २३,९ : १८; २१; -तान् निस् १०, ४ : ११; -तानाम् अं १ : ३; -तानि बौश्रौ २५, २ : ७; १०; शौच १, ९८; -ते बौश्रौ २४,३० : ६; -तेन ऋषा ११,१६; -तेषु लाश्रौ ७,७, ६; अप १ : ३३.	अ-व्यायत्- -तम् ऋषा १४, ४९.
१अ-व्यवस्था ^d - -स्था वाध १२, ४१; पावा १,१,५१; मीसू १, २,३०; २,४, २५; ३,१, १५.	अ-व्यवेन- -तम् ऋषा ५,५६; -ताः बौश्रौ २३,९ : १८; २१; -तान् निस् १०, ४ : ११; -तानाम् अं १ : ३; -तानि बौश्रौ २५, २ : ७; १०; शौच १, ९८; -ते बौश्रौ २४,३० : ६; -तेन ऋषा ११,१६; -तेषु लाश्रौ ७,७, ६; अप १ : ३३.	अ-व्यायत्- -तम् ऋषा १४, ४९.
२अ-व्यव(स्थ>)गथा ^e - -स्थाभिः शाश्रौ १६,७,९.	अ-व्यवेन- -तम् ऋषा ५,५६; -ताः बौश्रौ २३,९ : १८; २१; -तान् निस् १०, ४ : ११; -तानाम् अं १ : ३; -तानि बौश्रौ २५, २ : ७; १०; शौच १, ९८; -ते बौश्रौ २४,३० : ६; -तेन ऋषा ११,१६; -तेषु लाश्रौ ७,७, ६; अप १ : ३३.	अ-व्यायत्- -तम् ऋषा १४, ४९.
अ-व्यवहारिन् ^f - -री अप ४४, २, ४.	अ-व्यवेन- -तम् ऋषा ५,५६; -ताः बौश्रौ २३,९ : १८; २१; -तान् निस् १०, ४ : ११; -तानाम् अं १ : ३; -तानि बौश्रौ २५, २ : ७; १०; शौच १, ९८; -ते बौश्रौ २४,३० : ६; -तेन ऋषा ११,१६; -तेषु लाश्रौ ७,७, ६; अप १ : ३३.	अ-व्यायत्- -तम् ऋषा १४, ४९.
अ-व्यवहित,ता- -तः अप ४७, २, ८; शुप्रा ३, ६५; -ताः माश्रौ ५,१,१,९; अप्राय ३,९; -ताम् आश्रौ १, ३, २१; -तेन शुप्रा	अ-व्यवेन- -तम् ऋषा ५,५६; -ताः बौश्रौ २३,९ : १८; २१; -तान् निस् १०, ४ : ११; -तानाम् अं १ : ३; -तानि बौश्रौ २५, २ : ७; १०; शौच १, ९८; -ते बौश्रौ २४,३० : ६; -तेन ऋषा ११,१६; -तेषु लाश्रौ ७,७, ६; अप १ : ३३.	अ-व्यायत्- -तम् ऋषा १४, ४९.

a) द्रस. । b) विप. । कस. > बस. । c) विप. (रराटी-) । तस. उप. व्य(वि-अ)व/सि [बन्धने] + क्ते प्र. छान्दसो धात्विकारलोपः (वैतु. MW. <वि-अव/सो इति) । d) तस. उप. भाप. । e) विप. । बस. । f) तस. उप. गिनिः प्र. उसं. (पा ३, १, १३४) । g) पाभे. पृ १४७ a द्र. । h) वैप १, परि. च द्र. । i) तस. > बस. । j) पाठः? अन्वावृत्तम् इति शोधः सु-ऋषः (तु. सप्र. शांत्रा १०, २; O., काठ २६, ३ प्रतियोगितया दक्षिणावृत्त इति) ।

२५,२; वैश्रौ १५,३१ : १३.
 अ-व्यु(वि-उ)दक^१ -कः शङ्ख ४,
 १२,३२.
 अ-व्युदस्य(त >)न्ती- -न्त्यौ या
 ५, २.
 ऋ-व्युत्त-वह^२ -हः आपश्रौ १८,
 १०,११; माश्रौ ५,२,१०,४०;
 हिश्रौ १३,३, ४४; -हाः माश्रौ
 ५,२,१०,४१.
 ऋ-व्युत्त-प्रा^३ -श्याम् आमिगृ ३,
 ७,३ : ४; -ष्टे आमिगृ ३, ११,
 २ : १.
 अव्युत्त-काल^४ -ले आमिगृ ३,११,
 १ : ८.
 अ-व्युद-ढा^५ -ढः काश्रौ १२, ६,
 २६; आपश्रौ २१,७, १६; १४,
 ४; हिश्रौ १६, ३, ३५; -ढाः
 आपश्रौ १८,७,१२; -ढे वाश्रौ
 ३,२,२,३; २८; हिश्रौ १६, ३,
 ३५.
 अ-व्युह^६ -हेन वाश्रौ ३,२, २, ४२;
 ऋप्रा १८,५४.
 ऋ-व्युत्त-णा^७ -णः वैश्रौ १०,१:१४;
 -णम् काश्रौ ६, १, ८; आमिगृ
 ३,१०,२ : ९^०; वौषि ३,९,४^०;
 काश्रु ७, ७; -णाः कप्र २, ५,
 १९; ३,८,१३; -णाम् कप्र २,
 ५, ११.
 १अ-व्रत^१ -तम् आपमं २, ५, ९;

काश्रौसं ३२ : २; कागृ ४१,२३.
 २अ-व्रत^२ -पा ६, १, ११६^६; -तः
 वैश्रौ १२, १३ : १३; आमिगृ
 १,१,४ : ४८; हिगृ १, ८, १५;
 गोगृ १,९,१८; -तस्य शंघ ४६,
 १; -ताः वाध ३, ४; -तानाम्
 वाध ३,५; बौध १,१,१०.
 अ-व्रत-घ्न^३ -घ्नानि बौध २, १०,
 ६०.
 अ-व्रत-(स्थ >)स्था^४ -स्थाम् कप्र
 १,८,७^१.
 ऋ-व्रतिन्- -तिनाम् वौश्रौ १८,
 ४१ : १५; -ती चव्यू ४ : २६.
 अ-व्रतो(त-उ)पेत^५ -तस्य वाधृश्रौ
 २,११ : १४.
 अ-व्रत्य^६ -त्यम् शाश्रौ ३, ४, ११;
 काश्रौ ७, ५, १; आपश्रौ ९, ४,
 १५; बौश्रौ १३,३ : ६; २३,१ :
 १९; २९,१२ : १५; हिश्रौ १५,१,
 ८४; द्राश्रौ ७,३,७^१; द्रागृ २,१,
 ७; अप्राय ५, ४; बौध ३,४,१;
 ६,९^६; -त्येभ्यः गोगृ १, ६, ७;
 -त्येषु वौश्रौ २९,१२ : ३.
 अव्रत्य-प्रायश्चित्त- -त्तम् वौगृ ३,
 २, १७; ४२; ३, ६; -त्ते वौश्रौ
 ९,२० : ७; वौगृ २,५,६५; ३,
 ४, ३०.
 अव्रत्यो(त-उ)पचार^७ -रान् आश्रौ
 १२,८,१९.

अ-व्राजिन्- पाग ३,१,१३४.
 १अ-व्रात्य- -त्यम् विध ४८,२२^६.
 २अ-व्रात्य- -त्यः अश्र १५,१३.
 अ-व्रीड^१ - (>आव्रीडक^२ - पा.)
 पाग ४,२,५३.
 √अञ्^३ पाधा. स्वा. आत्म. व्याप्तौ
 संघाते च, अष्टि या ६,१२; ऋ-व्यु
 शाश्रौ ३,२०,४^{३०}; आपश्रौ १२,
 १०, १५; बौश्रौ ७, ५ : ४२;
 ६ : २७; माश्रौ २, ३, ४, २८;
 वैश्रौ १५, १२ : ७; १४ : १०;
 हिश्रौ ८,३,२०; ५०; ऋ-व्रत्यात्
 आश्रौ १,९,५^१; शाश्रौ १, १४,
 १८; अशीयाः वाश्रौ १,४,३,१^१;
 ऋ-व्रतीय आश्रौ ४,२,८,९,५,६;
 ५,३, १४^१; १३,६^१; शाश्रौ ५,
 ८,३; ७, १८, १-४×४^६; आपमं
 २, ३,३२^१; आमिगृ १, १, ३ :
 ६^१; मागृ १, २२, ११^१; हिगृ १,
 ५,६; १३, १५^१; अश्यासुः शाश्रौ
 ६,१,५; ऋ-व्रत्याम् आश्रौ ६,५,
 २^३; आपश्रौ ४,८,४^१; १४,१०,
 २; माश्रौ ४,१२,३; हिश्रौ १०,
 ६ ९; १०; वाध १७,४; बौध २,
 ६,३५; ऋ-व्रतीमहि आश्रौ १,७,
 ८^१; शाश्रौ ७, १६, ८^१; आपश्रौ
 ६,१६, १२^४, १४, ३२, २^४; बौश्रौ
 ४, १० : २^४; माश्रौ ६, २, ४^४;
 हिश्रौ ६, ६, १५^४; द्राश्रौ ७, २,

a) विप. (स्नातक-) । बस. उप. = विशेषोदक- । b) वैप १, परि. च द्र. । c) कस. । d) तस. उप. <व्यू(वि-ऊ)ह [गती] । e) वा. क्विवि. । f) तस. । g) तु. पाका. BPG.; वैतु. पासित. <√वृ [त्ररणे] क्वि. इति । h) तस. >उस. । i) अशासनस्थाम् इति BI. । j) तस. >द्विस. । k) सपा. अव्रत्यम् <>अव्रत्यम् इति पाभे. । l) ध्यप. । बस. । m) =देश-विशेष- । n) या ३,१०,५,३; १०,२७ पा ७,२,७४ पावा ३,१,२२ परामृष्टः द्र. । o) पाभे. वैप १ परि. अट्टु मा ८,६०^३ टि. द्र. । p) अश्याम् इति BI. । q) सपा. मा ५,३३ विशिष्टः पाभे. । r) पाभे. वैप १ परि. अशीय काठ ५,२ टि. द्र. । s) पाभे. वैप १ परि. अश्यात् का ९,२,७ टि. द्र. । t) अधीय इति पाठः ? यनि. शोधः (तु. हिगृ १,५,६) । u) पाठः ? इषम् इति शोधः संभाव्येतेति Böht [ZDMG ५२,८३] । v) पाभे. वैप १ परि. आनशु [<√अञ्] ऋ १०, ६२, १ टि. द्र. । w) पाभे. वैप १ अश्याम् मै १,४,३ टि. द्र. । x) सपा. ऋ १०,५७,६ सचेमहि इति पाभे. ।

१०^०; लाश्रौ ३, २, १०^०; आपमं; ऋश्याम आश्रौ २, १०, १२; ४, ७, ४; शाश्रौ; या ५, १५.

अश्नुते आश्रौ ६, १४, १८; ९, ५, २; शाश्रौ; निघ २, १८^१; या १, १८^१; २, २७; २८; ५, १२^३; १३; १६; ८, १४; १४, ३०; अश्नोति या ४, २५^१; अश्नुवाते वृदे ७, १२७; अश्नुवने या ९, ७; अश्नुवे या १४, २२^१; ऋश्रवत् आश्रौ २, १, २७; काश्रौ ५, १२, १०; बौश्रौ १३, ३६: ८; २८, ३: १६; माश्रौ ५, १, ३, १८; हिश्रौ २२, ५, २५; काश्रु २२, २; ऋश्रोत् शश्रि ७७; आश्नुत शाश्रौ १४, ३३, ८; ११; १४; १८; बौश्रौ १८, ४२: १७; अश्नुवत बौश्रौ १८, ३४: १५^०; अश्नुवीत या १, १२; वाध २८, १६; अश्नु-वीरन् वाधूश्रौ ४, ५९: ९; अश्नुवीय बौश्रौ १८, ३४: १६; ४२: १६; १८; अश्नुवीमहि बौश्रौ १८, ३४: १३^१.

अशनशि^० अप ४८, २. आष्ट पाश्रु ३, ३, ५^१; अप्राय १, ५^१; निघ २, १८; अशत् निघ २, १८; ऋशशत या ७, ७; ऋशक्षिषु: ० या ४, १३^०; आशिष: निघ ३, २१^१.

ऋशशन्^० -श्ना या १०, १२^०.

१अशन^० > ०न-वत् -वता या १०, १२; -वन्तम् या १०, १३.

२अशन^१ -न: या ४, २६.

अशन-चक्र^१ -कम् या ५, २६.

अशन^० -श्न: अप ४८, १०१; निघ १, १०; या ४, २६^१.

अश्नुवत् -वन् अप्राय ६, ९^१.

अश्नुवान > ०न-शाम^१ -भम् या ६, ३.

अष्टवै वाधूश्रौ ४, १०१: १०.

अष्टृ -ष्टा या १, १३.

ऋशानशन^० -ना: काश्रौ १०, ३, २२; बौश्रौ ८, ११: २; १४, ५: १६; माश्रौ २, ५, ४, १७; अप्रा ३, ४, १.

आशिन्^१ -शिनम् या ४, १४.

✓अश् पाधा. कथा. पर. भोजने, अश्नाति शाश्रौ ३, ८, १५; काश्रौ; या ११, ४^१; अश्नीत: काश्रौ २, १, १०; आपश्रौ ४, २, ३; काठश्रौ; अश्नन्ति बौश्रौ १८, २४: १९; वाधूश्रौ ३, ४१: २; ९७: २; ४, ७४: १३; वैताश्रौ; अश्नासि अत्र ८, २^१; अश्नीथ: या ५, २२^३; अश्नामि वाधूश्रौ ४, ८६: ११; हिश्रौ; अश्नातु बौश्रौ १७, ४४: १६^२; पाश्रु; अश्नीष्व भाश्रु १, ९: ११; ऋशशन आश्रौ ८, १४, ५; आपमं २, ६, १४; आश्रु; हिश्रु १, ५, १०^१; अश्नीतम् या ४, १९; ऋशनीत^१ द्राश्रौ ६, ४,

१७; लाश्रौ २, १२, १७; कौश्रु ९१, २०; (अश्नीत-पिबत > ता) पाश्रु २, १, ७२; अश्नवामहै शाश्रौ १४, १२, ११; आश्रन् वैश्रौ ८, १: २; अश्नीत वाश्रौ १, ५, ५, ४^१; माश्रु २, १३, २; शंघ ४४८; विध ३९, ३; अश्नीयात् आश्रौ २, ९, २; शाश्रौ; आपध १, १७, १४^१; हिध २, ४, ५०^१; अश्नीयाताम् शाश्रौ ४, १, २; आपश्रौ ४, २, ५; माश्रौ ४, ३, ३; वाश्रु ३, ७; अश्नीयु: द्राश्रौ ७, ३, २१; लाश्रौ ३०, ३, २२; आश्रु १, २३, २३; पाश्रु २, १९, १३; ३, १०, २६; शंघ ४०३; ४०४; विध ८१, ११; अश्नीयाम् वैध २, १४, १७.

अशिष्यति वाधूश्रौ ४, ३७: २३. अश्यते वाधूश्रौ ३, १६: ३.

आशयते कौश्रु ७२, १९; आशयति आपश्रौ १८, १४, ७; बौश्रौ १२, ९: १७; वाश्रौ ३, ३, २, ३१; कौश्रु ७, २०××; आशयत: कौश्रु ५४, १४; आशयन्ति बौश्रौ १८, ५०: २८; आशयत बौश्रौ २, १५: २^१; आशयेत् आपश्रौ १९, १३, १२; हिश्रौ २३, २, ४५; गोश्रु ४, ३, ३४; द्राश्रु १, १, ३; ४, २, १; कप्र २, ३, ६; बौध २, ८, ४.

३अशन^० -नम् काश्रौ १२, ४, ४;

- a) पाभे. पृ ४१८ X द. । b) आडभावे लङि प्रपु ३ रूपम् । c) अशशि इति मू.को. । d) पाभे. वैप १ परि. आष्ठा: मै २, १३, १० टि. द्र. । e) वैप १ द्र. । f) लुङ्थे लोटि मपु १ रूपम् । g) वैप १, परि. च द्र. । h) भाप. । i) विप. । कर्तरि कृत्. । j) =अश्म-चक्र- । विप. (संप्राम-) । वस. । k) वै १, १७६१ छ द्र. । l) विप. (अग्नि-) । कर्तरि गिति: प्र. उस्. (पा ३, १, १३४) । m) ण: इति पाठ: ? यनि. शोघ: । n) लोटि मपु ३ रूपम् । o) पाभे. वैप १ परि. अश्नीयात् काठ ८, १२ टि. द्र. । p) सप्र. हिध १, ५, ४६ अयात् इति पाभे. । q) सप्र. आपध २, १२, १४ अनाश्वान् इति पाभे. ।

आपश्रौ ४, २, ८; ८, ४, ११; २२, २, १५; काठश्रौ १५२; भाश्रौ ४, ३, २^३; भाश्रौ २, १, १, १३; वाश्रौ १, ४, १, ५^१; हिश्रौ; -नस्य जैगृ १, २३:२; -नानाम् वौश्रौ १८, २३:१; -नानि वाध ३, ६९; -नाय वौध १, २, ५७; -नेन वौश्रौ १८, ३३:३^३; ४. ऋशान-कृत्- -कृत् अश्र ९, ६. अशन-पवन^b- -नम् या ६, ९.

√अशनय^c > अशनया- -या वौश्रौ १७, १९:६; -याम् वाधूश्रौ ४, ६०:११.

अशनया-पिपासा^d- -से वाधूश्रौ ४, ६०:१०.

अशाना(न अ)नशन^e- -ने वौश्रौ २०, ४:४२.

√अशनाय पा ७, ४, ३४; अशनायन् वाधूश्रौ ४, २९:१; अशनायेयुः वाधूश्रौ ४, २९:२.

अशनायत्- -यति जैगृ १, २३:८.

अशनाया- -या वौश्रौ २, ५:२^१.

अशनाया-परीत- -तम् शांश्रौ १५, १९, १.

अशनाया-पिपासा^d- -से शांश्रौ २, ८, ६^१.

ऋशानायापिपासी-य^f- -येन शांश्रौ २, ८, ८; १६; २२.

अशाना(न-अ)र्थ- -र्थम् वैध ३,

५, १. अशाना (न-आ) सना(न-अ) भि-वाद्न-नमस्कार^d- -रान् गौध ९, ४७.

अशनीय- -यम् वौध २, ३, ११; -यस्य आपगृ १९, २; वौगृ.

अशाना->पिपासा^d- -से अप्राय २, ४.

अशित, ता^e- -तम् वाधूश्रौ ३, ३९:६; -ता अश्र १२, ५(४), १^१; -तात् वाधूश्रौ ४, ११६:३.

अशित-पीता (त-आ) दि-दिभिः शंघ ३४०.

अशिता-वत्^h- -वति अश्र ९, ६(३), ८^१.

अशितुम् कप्र १, ३, ७.

अशित्वा शांश्रौ १४, २७, १; आपश्रौ.

अशिशिषु- -षोः कौस् ४८, ४२; ४९, २२.

अशिव्यत्- -व्यन् माश्रौ ५, १, ५, ३७.

अशत्- -शतः द्राश्रौ ७, ३, २२; लाश्रौ ३, ३, २३^१; -इत्सु गौपि २, ४, ५; कप्र १, ३, ८; -इत्सु वाधूश्रौ ४, ३०:२२; शंघ ३७७:१५;

वौध २, ३, १७; ४, ५, २०; हिध २, ४, ५१^१; -इन्तः वाधूश्रौ ४, ३०:२१; शांश्रु २, १६; वाध.

अशनी- -नीम् वैध ३, १, ९.

ऋशयमा (न >) ना- -ना अश्र १२, ५, (४).

आशयन्- -यन् वौध २, ८, ५.

आशयित्वा हिश्रौ १५, ५, ६; वैताश्रौ

४३, ६.

आशित- -तः आपश्रौ १०, ६, ९; वौश्रौ १८, ३२:२; भाश्रौ १०, ४, ६; हिश्रौ १०, १, ४२;

पा ६, १, २०७; -तस्य वैश्रौ १२, ७:२; आमिगृ १, १, १:७^१; भागृ १, १:१२; हिगृ १, १, ७; -ताः वौश्रौ ५, १०:१७; वैश्रौ ९, ३:३; -ते पा ३, २, ४५; पावा ६, १, २०७; -तौ वौश्रौ २, १२:२८; ६, १:२४;

१५२:२१; २४, २१:७.

आशितं-गु¹- > आशितंगवीन-पा ५, ४, ७.

आशितं-भव- पा ३, २, ४५.

आशिन- -शिनः हिध २, ६, ५^m.

आश्य- -श्यम् वौश्रौ १८, २५:२;

आश्य-बन्ध्या (न्ध-आ) प्लवन-यान-भक्ष्य^d- -क्ष्याणि कौस् ७, १५.

आश्या(श्य-अ)ञ्ज^m- -ञ्जः आपध १, १९, २; हिध १, ५, १०४.

अश- √अश् (व्याप्तौ) द्र.

अ-शंसन- -ने आश्रौ ५, १०, ८.

१अ-शक्त, क्ता- -क्तः कौगृ ४, १, ५; वौप २, ८, ११; वैगृ: -क्तस्य वौश्रौ २९, ५:२०; -क्ता जैश्रौ १९४; -क्ताः वौगृ ३, ३:२२; -क्ते अप ३, २, ५;

शंघ २७०; -क्तेन वौध ४, ८, ९.

अशक्त-भर्तृ(क>)का^m- -काम् विध ५, १८.

a) सप्र. औपवत्सम्, अशनम् <> उपवत्स्यइशनम् इति पाभे. । b) कास. उप. करणे <√पृ।

c) =√अशनाय । दीर्घाऽभावः उलं. (पा ७, ४, ३४) । d) द्रस. । e) समाहारे द्रस. (वैगृ. भवस्वामी षम. इति) ।

f) विप. (मन्त्र-) । छ>इयः प्र. उलं. (पा ४, २, १३८) । g) भाप., विप. । h) वैप १ द्र. । i) अतः इति च्युतमध्याक्षरः पाठः ? यनि. शोषः (तु. द्राश्रौ. भाष्यं च) । j) सप्र. आपध २, १२, १३ अनाशान् इति पाभे. ।

k) अशि^o इति पाठः ? यनि. शोषः (तु. भागृ. प्रभृ.) । l) विप. (अरण्य-) । बस. (तु. पाका.) । m) सप्र. आपध २, २८, ५ आशिनः इति पाभे. । n) विप. । बस. ।

२अ-शक्त,क्ति^a- पा ५,४, १२१^b.
 अ-शक्ति^c- -क्तेः मीस् ११, १, ५८;
 -क्तौ आश्रौ २, २०, ५; काश्रौ
 ८, ५, ११; ९, १०, ९; १२, १, २०;
 २५, ६, १०; ११, १; आमिष्ट; पा
 ६, २, १५७.
 अशक्ति-युक्त- -क्तम् अप ३, २, ४.
 अ-शक्तनुवत्- -वन् हिश्रौ २२, ४, ७.
 अ-शक्त्य- -क्यम् वैश्रौ २, ११ : ४;
 -क्ये शाश्रौ १३, १४, २; काश्रौ
 ५, १०, १७; ७, ५, ३; आपश्रौ
 १४, ३२, ५^f.
 अशक्त्य-त्व- -त्वात् काश्रौ १, ६,
 २५; पावा १, २, ५१; मीस्.
 अ-शक्त्यमान- -ने हिश्रौ १५, ६, ७.
 अ-श(ङ्का >)ङ्क^g- -ङ्केन आज्यो ५,
 १८.
 अ-शठ^h- -ठः वाध १०, २७^d; -ठस्य
 विध ८१, २३.
 अ-शत- -ते पा ५, १, २१.
 अ-शत-वर्षⁱ- -र्षे पाठ ३, १०, १४.
 ऋ-शत्रु^j- -श्रु शैशि ३३३; -श्रुः या
 १, १५; -०ओ आश्रौ ६, ४,
 १०; शाश्रौ ९, १६, १.
 अशन्-, १-२अशन- ✓अश्(व्याप्तौ)
 द्र.
 ३अशन-प्रभृ. ✓अश्(भोजने) द्र.
 अशनि,नी^k- पाठ ५, २, ६४; ३, ११७^b;
 ४, ३८^b; पाठ ३, १०२; -नयः
 अप ५८^l, १, ८; १०; ४, १६;
 -नये शाश्रौ ४, १८, ५; पाठ
 ३, ८, ६ⁿ; -नंति काश्रौ ३, ५,

१४; -नंतिः आपश्रौ ९, ६, १०;
 हिश्रौ १५, २, १६; पाठ ३, १५,
 २०; कौस् ४१, १३; -निना
 हिष्ट १, १५, ६^l; -नंतिम् अप
 १, ३७, ४; अश्र ३, २६; -नेः
 आपश्रौ ५, २, ४^f; -न्यै गोग
 ४, ४, २७.
 आशन- पा ५, ३, ११७^l; ४,
 ३८.
 अशनि-क- पा ५, २, ६४.
 अशनि-पात- -तेन वैष्ट ७, ४ : ११.
 अशनिपात-मृत- -तानाम् बौपि
 २, ८, ६.
 अशनि-युक्त- -क्तम् कौस् ३८, ८.
 अशनि-वायव(यु-अ)नुपहत^k- -तम्
 वैश्रौ १, १ : ९.
 अशनि-हत, ता- -तः बौश्रौ २,
 १२ : ४; हिश्रौ ३, ३, ३७; हिपि
 २३ : १३; -तम् बौश्रौ २०,
 १६ : ३^l; माश्रौ १, ५, २, १८;
 वाश्रौ १, ४, २, ८; वैश्रौ १, ७ :
 ९; -तस्य आपश्रौ ५, २, ४; १६,
 ६, २; भाश्रौ ५, ५, १४; माश्रौ
 ६, १, २, २३; वाश्रौ २, १, १, ४९;
 वैश्रौ १८, ३ : ६; हिश्रौ ११, १,
 ६७; -तानाम् काध २७४ :
 १; -ताम् हिश्रौ १०, ३, ९; -ते
 बौश्रौ २४, १४ : ४.
 ऋ-शपत्- -पतः आपश्रौ ४, १५, १;
 भाश्रौ ४, २१, १; हिश्रौ ६, ४,
 १८.
 अ-शपथ^b- -थे पा ५, ४, ६६.

१अ-शब्द^c- -ब्दम् आपश्रौ ६, ११,
 ४^l; आश्रौ ६, १३, ५; -ब्दानाम्
 जैश्रौका २१४; -ब्दे पा ३, ३,
 ३३; ४, ३, ६४; पावा ४, २,
 १०४.
 अशब्द-वत्- -वत् वाध ३, २६.
 २अ-शब्द^d- -ब्दः आपध १, २२, ७;
 हिध १, ६, ७; -ब्दम् वैष्ट १, २ :
 ५; तैश्रा २३, ६; मीस् १, ३, १;
 ४, १, १४; ३, ९; ६, ३, २९; अप
 ६४, ३, ४.
 अशब्द-त्व- -स्वम् मीस् ७, ४, १५;
 ९, ३, २७; -त्वात् मीस् ५, २,
 १८; १०, ७, ३९; ६३; ६८^m.
 अ-शब्द-क्रियⁿ- -त्व- -त्वात् पावा
 १, ४, ५२.
 अ-शब्द-दोष^o- -षम् मीस् ११, १,
 १३.
 अ-शब्द-संज्ञा- -ज्ञा पा १, १, ६८;
 पावा ५, २, ५९; -ज्ञायाम् पा
 ७, ३, ६७.
 अशब्दसंज्ञा-भाव- -वात् पावा ७,
 ३, ६६.
 अ-शम्^p अग २, ४, १६^f.
 अ-शमयित्वा बौश्रौ १७, ४६ : १; ४.
 अ-शमी-गर्भ^q- -र्भम् वैश्रौ १, १ :
 ८; -र्भस्य आपश्रौ ५, १, ३;
 -र्भात् कप्र १, ७, ३०^l.
 अ-शमीग(र्भ >)र्भी^r- -र्भीम् बौश्रौ
 २, ६ : २८.
 अ-शमी-धान्य^s- -न्यम् वैश्रौ १,
 १६ : ३; आमिष्ट १, १, ४ : २९;

a) विप.। बस.। b) क्वाचित्कः पाभे.। c) तस.। d) अ-शवः इति Bühler. e) तस. उप.
 द्विस. ठसः प्र. लुक् (पा ५, १, ८८)। f) वैप १, परि. च द्र.। g) =आयुधजीविजाति-विशेष-। व्यु. ?। h)
 =हृदस्य नामन्-। i) पाभे. वैप १ परि. अशुभ्या गौ ७, ११४, ४ टि. द्र.। j) =आयुधजीविजातिराज-
 इति MW.। k) द्रस. > तस.। l) सप्र. अशब्दं कुर्वन् <> अशिनन् इति पाभे.। m) तु. जीस.।
 n) तस. > बस.। o) विप.। बस. > वस.। p) वैप १ द्र.। q) वि. (अश्वत्थ-)। तस. > बस.। r) विप.
 (आश्वत्थी-] अरणि-। तस.।

४६; २, १ : २०; ३ : ४३; हिगु १, ८, २.	३१ : १२.	अ-शास्त्र-लक्षण-त्व- -त्वात् मीस् ३, ६, ३९; ८, ३, २२.
अ-शयन ^a -नः शोध ३७८.	अ-शाकर ^b -रः निस् ३, १३ : ४; ६; ९; १०; -रम् निस् ३, १३ : २; -राणि निस् ३, १३ : १२.	अ-शास्त्र-हेतु-त्व- -त्वात् मीस् ३, २, ४.
अ-शरण ^c -णः बाध १०, २७; आपध २, २१, १०; २१; बौध २, १०, ६३; हिघ २, ५, ११९; १३०.	अ-शाकरी ^b -री निस् ३, १३ : ३.	अ-शा(स्त्र>)स्त्रा ^d -स्त्रा मीस् ६, २, १९ ^e .
१अ-शरीर ^b -रे पा १, ३, ३७.	अ-शाखा-ज ^k -जम् आपध्रौ ७, १, १७.	अ-शि(खा>)ख ^h -खम् काश्रौ २, १, ९ ^f ; सु ३१, ३.
२अ-शरीर, रा ^o -रः अप १, ४९, ३१ ^o ; आपध १, २२, ७; हिघ १, ६, ७; -रम् याशि २, ९२; -राः वाध्रौ ४, ४५ : ५; अप ५७, १, २; २-४, २; -रेण वाध्रौ ४, ४५ : ५.	अ-शास्यवत् -वत् कप्र २, १०, ५.	अ-शिञ्जत् -ञ्ज् वैश्रौ २, ५ : ९ ^g .
अ-शर्मन् ^a -र्मा आपध २, २१, १०; २१; बौध २, १०, ६३; हिघ २, ५, ११९; १३०.	अ-शान्त, न्ता ^k -न्तः बौध्रौ १६, ९; ६१; -न्तम् निस् ८, ७ : १३; आम्रिगु २, ६, २ : १३१; गोगु ३, ४, १४१; अप ७० ³ , ११, २३; बौध २, ५, ६१; -न्ताः बौध्रौ १४, १ : १४; -न्ते कौगु ५, ५, ३.	अ-शित- प्रसु. ✓अशु (भोजने) द्र.
अ-शाल्यक-शश-शवाविह ^l -गोधा-खङ्ग-कच्छप ^e -पाः गौध १७, २५.	अ-शान्ति- -न्तिम् आध्रौ १, २, ११.	अ-शित्र- पाठ ४, १७३.
अ-शास्त ^l > -स्त-शंसन- -ने वैताश्रौ १२, १०.	अशान्ति-कृत् -तम् आपध्रौ १५, २१, १३; बौध्रौ ९, २० : २५; भाश्रौ ११, २२, १८ ¹ ; बौगु ३, ४, ३६ ^m .	अ-शिथि(र>)रा ⁱ -रे माश्रौ २, ३, ७, २ ⁿ .
†अ-शास्ति ^k -स्तिः आपध्रौ २, २०, ६; भाश्रौ २, १९, १; हिश्रौ २, ५, ४७; अप ४८, ६३; -स्तीः बौध्रौ १०, २ : १०.	अ-शाब्द ^b -ब्दम् मीस् ५, १, ५ ^p .	अ-शिथि(ल>)ला ⁱ -ला निस् ३, २ : २१.
अ-शास्त्र ^h -स्त्रेण आम्रिगु ३, ५, ४ : ४; १२; १९.	अ-शा(ल>)ला -ला पा २, ४, २४.	अ-शिपिविष्ट ^l -ष्टम् बौध्रौ २, ३ : ९.
अ-शाक-भक्ष-स्नेह-मांस-मधु ^e -धूनि गौध १७, १४.	अ-शासन ^b -नात् बौध २, १, १६; पावा ६, १, २.	आ, आशिर- पाठ १, ५२; पाउना ¹ १, ५१.
अ-शाकुन ^l -नम् ¹ आपमं १, १३, ६; बौगु ४, २ : ११; भागु २,	अ-शास्त्र-ग ^k -गम् अप २, ६, २.	अ-शिरस्क ^a -स्कः आपधु २१, ३; हिगु ६, ६८; -स्कम् विघ ५, ४.
	अ-शास्त्र ^a -त्व- -त्वात् मीस् १०, ७, १४; ११, २, २७.	अ-शिल्पिन ^b -ल्पी गौध १७, ७.
	अ-शास्त्र-निष्पत्ति ^o -त्तेः मीस् ३, ३, २३.	†अ-शिव ^k -वस्य अप्राय ६, ९; -वाः अप ५०, ९, ४; -वेन सु १२, १.
	अ-शास्त्र-लक्षण ^p -णात् मीस् १२, २, ३७.	अशिशिषु- ✓अशु (भोजने) द्र.
		अ-शि(शु>)श्वी- पा ४, १, ६२.
		?अशिषः अप्राय ३, १०.
		अ-शिष्ट- -ष्टम् बौध्रौ ३, २८ : ८ ^q ; -ष्टेन मीस् १०, ८, ६३.
		अशिष्टत्व- -त्वात् मीस् ६, ३, १३; ११, ३, २९.

a) विप. । बस. । b) तस. । c) पाठः ? रम् इति शोधः । d) वराह-विशेष- (तु. भाष्यम् [आपध १, १७, ३७]; वैतु. अत्रा. =शाल्यक- इति) । e) विप. । बस. > द्रम. । f) =दुष्ट- । तस. । g) वैप १, परि. च द्र. । h) तस. उप. < ✓शस [हिं गायाम्] । i) =अप-शकुन- । तस. । j) सप्र. अशाकुनम् <> रुदितम् इति पाभे. । k) विप. । तस. > उस. । l) शान्ति कृतम् इति पाठः ? यनि. शोधः (तु. आपध्रौ. बौध्रौ.) । m) शान्ति^o इति पाठः ? यनि. शोधः (तु. आपध्रौ.) । n) ष्दः इति जीसं. । o) तस. > पंस. । p) बस. > बस. । q) ष्त्वात् इति काचित्कः पाठः ? । r) वा. क्विवि. । s) पाभे. ४२१ k द्र. । t) विप. । तस. । u) पाभे. वैप १ शिथिरे तै २, ३, ४, ३ टि. द्र. ।

अशिष्ट-पतित-मत्तो(त-उ)न्मत्त°-
-त्तानाम् आपध २, ११, ९;
हिध २,४,१४.
अशिष्ट-व्यवहार- रे पावा २, ३,
२३.
अ-शिष्य- -व्यः पावा १, १, ४४; २,
६४; २, २, २५; -व्यम् पा
१, २, ५३; पावा १, १, ५०;
२, ५८; ३, १, ४०; २, १२०;
-व्यान् वाध ११, १७; -व्याय
वाध २४, ६; बौध ४, ४, ९.
अशिष्यत्- √अश (भोजने) द्र.
अ-शीत->†त-तनु^०- -०नो आपश्री
३, १०, १; बौश्री १, २० : २४;
२, १८ : १७; भाश्री ३, ९, ५.
†अशीत-म- -०म शुप्रा ३, १३०;
५, ३७.
अशीति^०- -तयः बौध ४, ५, २०;
शुअ २, २६१; -तिः शाश्री ९,
२८, १०†; विध ५४, ३३; बौशु
११ : १; चव्यू १ : १५; ऋप्रा
१६, ९०; ऋअ ३, ४३; ४, ७;
मैअ २१; निघ ४, २; -तिम्
शाश्री १८, ७, २; ८, १; १२, १;
अप ५७, ४, ६; -तीः शाश्री
१८, ७, १; काग ४१, ५; †कौस्
४७, ४६; -त्या हिश्री १२, ३, ४^१.
अशीति(क>)का-> °का(का-
अ)वर°- -रः गौध ६, १०.
अशीति-शत- -तम् शंध ३२४;
चव्यू ३ : १०; -ते शाश्री १६,
८, १०.
अशीत्य(ति-अ)र्ध- -र्धम् जैगृ २,
४ : २.

अ-शीर्ण- -र्णम् वैश्री १, १ : १०.
अ-शीर्णा(र्ण-अ)प्र^०- -प्राः कप्र २, ५,
१९.
अ-शीर्ष- (> °षिक-, °षिन्- पा.)
पाग ५, २, ११६.
?अ-शी(र्विन>)र्ष्णी^१ मागृ २, ११,
११.
अ-शु(ऋ>)क्ला^०- -क्ला या ९, २६.
अ-शुचि^०- पा ६, २, १६१; ७, ३, ३०;
-चि वाध ४, २३; आपध १, २९,
१४; बौध २, १, ५०; हिध १, ७,
७१?°; -चिः आगृ ३, ४, ७†;
आमिगृ २, ६, ७ : ३८; ७, ८ :
२३; ३, ७, ४ : ३०; १०, २ :
१०; ११; बौपि २, ४, १९; वैगृ
६, १३ : ६; जैगृ २, १ : ३८†;
८ : २९; कप्र १, १०, १३; वाध
५, ६; १४, ३०; शंध ४०; ३६४;
बौध १, ४, १४†; वैध ३, ३, ५;
गौध १६, ४७; काध २७३ :
१३; -चिना कप्र १, १०, १३;
-चिम् गौध २३, २२; -ची
शंध ३५८; -चीनि बौध १, ५,
५३; -चेः बौध १, ५, ६३; -चौ
विध ७०, १७; वैध ३, ५, २;
-च्यः शंध ८३.
आशौच^०- पा ७, ३, ३०; -चम्
पागृ ३, १०, २; ६; २९; ३८;
आमिगृ ३, ७, ३ : ३०; १०, ४ :
३६; बौपि २, ३, २; वैगृ ६, ४ :
१; ७, ३ : १०; ११; ५ : २;
६; ११; कप्र ३, ५, ६; वाध ४,
१६; २३; ३४; ३६; २३,
२४; बौध १, ५, ९०; १०४;

१०५; विध १९, १३; २२, १;
१९; गौध १४, १; २२; २८;
मुध १०; १६; १९; -चे वैगृ ६,
४ : ३; वाध ४, ३१; शंध १९;
विध २२, ६; वैध २, ११, ९.
आशौच-काल^०- -ले बौधि
२, ८, ७.
आशौच-वाकतोद-कम्पना-
(न-अ)शु-शवभरणा (ण-अ)-
नुगमन-द्रहनो(न-उ)दकबलिपि-
ण्डदाना(न-आ)दि^१- -दि वैगृ
७, ४ : १२.
आशौच-व्यपगम^१- -मे विध
२७, ५.
आशौच-शेष^१- -बेण विध
२२, ३९.
आशौचा(च-अ)न्त^१- -न्ते
विध १९, १८.
आशौचा(च-अ)पगम^१- -मे
विध २२, ९.
आशौचो(च-उ)दकबलिदानै-
(न-ए)कोहिष्टा(ष्ट-आ)दि^१-
-दीन वैध ३, ८, ५.
अशुचि-कर- -राणाम् आपध १,
२९, १७; हिध १, ७, ७४; -राणि
आपध १, २१, १२; १९; बौध
२, १, ४६; हिध १, ६, ४२; ४९;
-रौ आपध १, २९, १५; हिध
१, ७, ७२.
अशुचिकर-निर्वेष^१- -षः आपध
१, २९, १८; २, १२, २२; हिध
१, ७, ७५; २, ४, ५९.
अशुचि-करण^१- -णम् जैगृ २, ९ : २.
अशुचि-कारिन्- -री विध ५, १०६.

- a) दस. । b) वैप १, परि. च द. । c) (अशीत्यूर्ध्ववयस्क-)। पंस. । d) विप. । तस. > बस. ।
e) वैतु. पाका. आशी° इति ? । f) विप. । बस. । g) विप. । तस. । h) °चिदुक्तम् इति पाठः ? यनि. च
शुक्तम् इति च द्वि-पदः शोधः (तु. आपध.) । i) भावे अणि प्र. वृद्धि-विकल्पः । j) षस. । k) दस. > बस. ।
l) तस. उप. = प्रायश्चित्त- ।

अशुचित्व-शुचित्व- स्वस्य शंघ ३७०.	१, ३, १८ ^१ ; विध ५७, ४; -द्धे वाघ २७, १५.	१ ^१ ; माश्रौ १, २, ११ ^१ ; माश्रौ १, १, १, १२; वाश्रौ १, २, १, ४ ^१ ; वैश्रौ ३, ३ : २; हिश्रौ १, २, ८; १०; १२ ^१ .
अशुचि-द्रव्य ^१ - -व्यम् शंघ ४३९.	अ-शुद्धि- -द्धिः वैध ३, ४, १२; -द्धौ शंघ ३५८.	अ-शुद्ध ^१ - -द्राणाम् आपध १, १, ६; हिध १, १, ६; -द्रात् शंघ १४२; -द्धे पा ८, २, ८३; -द्धेण काश्रौ ४, २, २२; १४, १.
अशुचि-भाव ^१ - -वम् विध ९६, २६.	अशुद्धया(द्धि-आ)वह ^१ - -हः काध २७३ : १३.	अशुद्ध-कृ(त>)ता- -ताम् हिश्रौ ३, ७, १५.
अशुचि-लिस- -सानि आपध १, २, २९; हिध १, १, ६२.	अ-शुभ,भा ^१ - -भम् वैग् ६, २ : १२; अय २०, ७, ५; २६, १, १; २९, १, २; २, ३; ५; †३६, १, ६; ११; ५२, १४, ४; ६७, १, ५; ६८, १, ५०; २, ५७; ७० ^३ , ६, १; ७१, १६, ५; शंघ १०३; सुधप ८५ : ६; -भस्य अप २०, ७, २; २६, ५, ९; -भा अप ५९, १, १०; ६७, २, २; -भान् अय ६८, ३, १; -भे अय ६३, २, १; -भेषु अय ५९, १, २०.	अ-शुद्ध-रूप(त्री-अ)सूयक ^१ - -केषु पावा ८, २, ८३.
अशुचि-शुक्लो(क-उ)पत्र ^१ - -ज्ञानाम् बौध २, १, ५१.	अ-शुभ,भा ^१ - -भम् वैग् ६, २ : १२; अय २०, ७, ५; २६, १, १; २९, १, २; २, ३; ५; †३६, १, ६; ११; ५२, १४, ४; ६७, १, ५; ६८, १, ५०; २, ५७; ७० ^३ , ६, १; ७१, १६, ५; शंघ १०३; सुधप ८५ : ६; -भस्य अप २०, ७, २; २६, ५, ९; -भा अप ५९, १, १०; ६७, २, २; -भान् अय ६८, ३, १; -भे अय ६३, २, १; -भेषु अय ५९, १, २०.	अ-शुद्ध-रूप(त्री-अ)सूयक ^१ - -केषु पावा ८, २, ८३.
अशुचि-स्पर्श ^१ - -शै आमिष्ट २, ७, ८ : ८.	अशुभ-द- -दम् अय ३० ^३ , १, ८.	अ-शुद्ध-रूप(त्री-अ)सूयक ^१ - -केषु पावा ८, २, ८३.
अशुच्य(चि-अ)वेक्षण ^१ - -णे सुध ४२ ^१ .	अशुभ-दारुण ^१ - -णम् अय ७० ^३ , ११, ७; -णाः अय ६४, १०, १.	अ-शुद्ध-रूप(त्री-अ)सूयक ^१ - -केषु पावा ८, २, ८३.
अशुच्या(चि-आ)यतन ^१ - -नात् काश्रौ २५, ४, ३४.	अशुभा(भ-आ)ग(म>)मा ^१ - -माः वाघ ३, ३६.	अ-शुद्ध-रूप(त्री-अ)सूयक ^१ - -केषु पावा ८, २, ८३.
अशौच ^१ - पा ७, ३, ३०; -चम् शंघ ३५३; ३५६; विध २२, ८; ३३; ४७; गौध २, ७; सुध २०; -चे शंघ ४३६; विध २०, ३२; २२, ७; ८; १०; ४०.	अशुभा(भ-आ)ग(म>)मा ^१ - -माः वाघ ३, ३६.	अ-शुद्ध-रूप(त्री-अ)सूयक ^१ - -केषु पावा ८, २, ८३.
अशौच-क- -कम् शंघ ३६५.	अ-शुभ्रूषा- -षाम् बौध ३, ६, ७; विध ४८, २०.	अ-शुद्ध-रूप(त्री-अ)सूयक ^१ - -केषु पावा ८, २, ८३.
अशौच-व्यपगम ^१ - -मे विध २१, १.	अ-शुष्क,ष्का- -ष्कम् शाश्रौ १, ६, ८; वैश्रौ १, १ : ९; गोष्ट ४, ७, ८; द्राष्ट ४, २, ६; -ष्का वाश्रौ १, ५, ३, ४; -ष्कान् वाश्रौ ३, २, ५, ८.	अ-शुद्ध-रूप(त्री-अ)सूयक ^१ - -केषु पावा ८, २, ८३.
अशौचो(च-उ)दक-भाज ^१ - -भाजः विध २२, ५६.	अ-शुष्क,ष्का- -ष्कम् शाश्रौ १, ६, ८; वैश्रौ १, १ : ९; गोष्ट ४, ७, ८; द्राष्ट ४, २, ६; -ष्का वाश्रौ १, ५, ३, ४; -ष्कान् वाश्रौ ३, २, ५, ८.	अ-शुद्ध-रूप(त्री-अ)सूयक ^१ - -केषु पावा ८, २, ८३.
?अशुचि वसुतिलोपजीवी चाक- चाम्भीक।?। पूर्वार्स्वर्ण- कारलेख्याकारगुणकगणि- काज्ञानि सुध ५९.	अ-शुष्क,ष्का- -ष्कम् शाश्रौ १, ६, ८; वैश्रौ १, १ : ९; गोष्ट ४, ७, ८; द्राष्ट ४, २, ६; -ष्का वाश्रौ १, ५, ३, ४; -ष्कान् वाश्रौ ३, २, ५, ८.	अ-शुद्ध-रूप(त्री-अ)सूयक ^१ - -केषु पावा ८, २, ८३.
अ-शुद्ध,द्धा- -द्धः माश्रौ १, २, २, ४ ^१ ; वाश्रौ १, २, ४, ३८ ^१ ; शंघ २३६ ^१ ; विध १२, ६; वैध ३, ११, ६; ९; -द्धम् विध ११, ८; १४, ५; -द्धा शंघ ७३; -द्धाः हिश्रौ	अ-शुष्क,ष्का- -ष्कम् शाश्रौ १, ६, ८; वैश्रौ १, १ : ९; गोष्ट ४, ७, ८; द्राष्ट ४, २, ६; -ष्का वाश्रौ १, ५, ३, ४; -ष्कान् वाश्रौ ३, २, ५, ८.	अ-शुद्ध-रूप(त्री-अ)सूयक ^१ - -केषु पावा ८, २, ८३.

a) कस. । b) षम. । c) कस. > तुस. । शुक्ल=शुक्ल. । d) सप्र. अशुच्यवेक्षणे <> चण्डालदर्शने इति पाभे. । e) विप. । बस. । f) पृ ४२३ j टि. द्र. । g) विप. । द्रस. > उस. । h) उस. उप. कर्त्तरि कृत् । i) विप., नाप. । वैप १ द्र. । j) तस. > बस. । k) वैप १, परि. च द्र. । l) तस. > द्रस. । m) विप. । तस. > द्रस. > तुस. । n) पाठः ? °च्छिष्टी, अमधु इति द्वि-पदः शोषः (तु. हिग् १, ८, २) । o) तस. । p) विप. (तु. B.W.) । बस. । q) सप्र. °ज्ञाम् <> °श्रीम् इति पाभे. ।

अशुद्धी ^a - झीम् काठश्री २५ ^b .	अशेष-ता- -ता मीस् ३,५, ५.	१अश्मक- पाउभो २,२,११.
अशुष्टवान- -नः कप्र १,६,८.	अशेष-स्व- -स्वात् मीस् ३, ५, ५;	अश्मन् ^c - पाउ ४, १४७; पाग ४,
अशुष्ट,ता ^d - -तः बौश्री २४, २६ :	४,२,१९; ६,७,८.	१, ११०; १२३; २, ८० ^e ;
८॥; -तम् आपश्री ६, ६, १;	अशेष-भूत-स्व- -स्वात् आपश्री	९०; ५, १, ३९; ५०; २, ६४;
१५, २१, ९; भाश्री ७, १९, १५;	२४, ४, २०; मीस् २, ३, १; ४,	-श्म वैग ५, ६ : १९××;
११, २२, १२; वैश्री २०, २९ :	३, ३६; ६, ४, १६; ७, ३, २८;	-श्मन् काश्री १८, २, १; २;
१; हिश्री ४, ५, १३; आमिग	१२, २, २१.	आपश्री; -श्मनः काश्री २१, ४,
२, ७, ९ : १९; भाग ३, १९ : ४:	अशेष-वत् मीस् ११, १, ५०.	२०; आपश्री; या ६, १॥; पावा
माग २, ५, ४; बौध ३, ६, ३;	अशेष विशेष- -वस् वैध १, ९, १५.	६, ४, १४४; -श्मना बौश्री
विध ४८, ४; -ताभिः शंध	अशेष-संस्कार ^k - -रः बौपि ३,	१०, ४८ : २५; ३०; बौपि ३,
४५९; -ते बौश्री २७, ३ : ५॥.	११, १.	४, ४; गौपि १, ३, ३; वैग ५, ७ :
अशुष्ट-दुःशु ^l - -ते भाग ३, १९ :	अ-शेष-भूत-निर्देश ¹ - -शः मीस्	११; -श्मनि काश्री १८, २, ७;
२ ^o ; -तौ आमिग २, ७, ९ :	६, ८, ५.	श्आपश्री; -श्मनोः या ८, २॥;
१८ ^f .	१अशोक ^m -> क-कुसुमा(म-आभा	-श्मभिः आमिग ३, ६, ३ : २२;
अशुष्ट-द्रव-दाहो(ह-उ)स्वेक-निस्वा-	>)भ ⁿ - -भः अप २९, १, ६.	बौपि १, ११ : १८; हिपि ७ :
व ^o - -वे बौश्री २७, ३ : ५ ^h .	अशोक-पुण्य- -प्यैः अप ७०, १२,	११; कौस् ८६, ७; -श्मा शाश्री
१अ-शेव ^o - -वाः ^h आमिग ३, ६, १ :	५.	६, ३, ८॥; हिश्री; निघ १, १०;
२५; काग २६, १२; ४५, १२;	२अशोक,का ^o - पाग ४, १, १२३; २,	-श्मानः आपश्री १६, १३, १०;
बौपि १, ९ : २.	८० ^p .	हिश्री ११, ५, २१; अशा २२,
अ-शेष- -वम् अप्राय ३, ६; अप	आशोक्य- पा ४, १, १२३; २, ८० ^q ;	१॥; -श्मानम् आश्री ८, १४,
७० ^r , १, ४; मीस् ६, ७, ११;	(> ^o केयी- पा.) पाग ४, १,	१२; शाश्री.
-षात् काश्री ३, ३, २७; -षे	७३.	आश्मन्य ^u - पा ४, २, ८०.
आश्री ३, ११, १३; १४; १४, ३;	अ-शो(ष>)पा ^v - -षा अप ६९, ४, २.	आश्मायन- पा ४, १, ११०; २,
शाश्री ३, २०, १६; काश्री ६, ८,	अ-शोष्य- -ष्यः विध २०, ५२.	८० ^g .
९; बौपि ३, ४, २१ ⁱ ; मीस् ६,	अ-शौच- अशुचि- द्र.	आश्मिक- पा ५, १, ५०.
४, ११; -षेण वाश्री १, ६, ७,	अ-शौद्र- -द्रेण गौध ७, २२.	आश्मेय- पा ४, १, १२३.
१५; ३, १, २, २९; विध १, ३१.	अ-शौभ्रेय ^h - -यम् काश्री १०, २,	अश्म- पा ५, ४, ९४.
अशेष-कर्मन् ¹ - -र्म मीस् ६, ७, ९.	२०.	२अश्म-क- पा ४, २, ८० ^p ; ५, २,
अशेष-तसः (:) बौश्री २९, ३ : १०;	अश्म- √अश् (व्याप्तौ) द्र.	६४.
कप्र ३, ९, १२; अप ३०, १, ३;	अश्मत्- √अश् (भोजने) द्र.	आश्मकि- पा ४, १, १७३.
६१, १, २५; ६८, १, ५०; वाध	१अश्नुत ^o - -तस्य चाअ १५ : ५.	अश्म-कुट्ट ^v - -ट्टः विध ९५, १४;
२५, १; आज्यो ११, १.	अश्नुवत्- प्रभृ. √अश् (व्याप्तौ) द्र.	-ट्टाः वैध १, ८, १ ^w ?

a) स्त्री. ङीष्ः प्रतिप्रसवः उंसं. (पा ४, १, ५७) । b) पाभे. पृ ४२४ q टि. द्र. । c) वैप १, परि. च द्र. । d) द्वस. । e) सप्र. °ते<>°तौ इति पाभे. । f) समाहारे द्वस. । g) °वेषु इति मूको. । h) पाभे. वैप १, ६४९ b द्र. । i) शेषे इति R. । j) कस. । शेष° इति जीसं. । k) विप. । बस. । शेष° इति R. । l) तस.>कस.>षस. । m) =वृक्ष-विशेष- । व्यु. ? । n) षस.>बस. । o) =ऋषि-विशेष- । व्यु. ? । p) अर्थः व्यु. च ? । q) =देश-विशेष- ? । r) विप. । बस. । s) तस. उप. <शुभ्र- । t) नाप., व्यप. । व्यु. ? । u) अर्थः ? । v) =वानप्रस्थ-विशेष- । उंस. (तु. मनुः ६, १७) । w) °कृदाः इति पाठः ? यनि. शोषः । वैप ४-प्र-५४

अइम-क्रमणा(ण-आ)दि- दि शांयु
१,१४,२^a.

†अइम-चक्र^b- -क्रम या ५,२६^c.

अइम-चूर्ण^c- -णानि बौश्री ९, ४ :
२२; १७ : ९; १०,८ : ५.

अइम-द्विष्टु^b- -द्यवः आश्री २,
१३,७[†].

अइम-नव(म>)मा^b- -माः आपश्री
१७,२१,२; माश्री ६, २, ६,२;
वाश्री २,२, ४, २३; वैश्री १९,
६ : १३७.

†अइमन्-म(य>)यी^d- -यीभिः
या ४,१९^c.

अइमन्य- पा ५,१,३९.

†अइमन्-व(त्>)ती- -ती शांश्री
४,१५,५; १६, १३, १३; काश्री
२१,४, २१[†]; वैताश्री १२,११;
आय १,८,२; ४, ६, १३; कौय
१, ९, १५[†]; ५, ४, ६[†]; शांयु
१, १५, १८; आम्रिय ३, ६, १ :
२४; काय २६, १२; ४५,
१२; बौपि १, ८ : २०; ९ : १;
हिपि ७ : १२; कौसू ७१, २४;
८६, २७; शुभ्र ४, ४९.

अइम-भार-(>आइमभारिक-पा.)
पाग ५,१,५०.

अइम-मण्डल^c- -लम् कौसू ५३, २;
५४, ८; -लाभ्याम् कौसू ३६,
३३; -ले कौसू ५३, १४.

अइम-मय- -यम् विध २३, ३;
-यानाम् बौध १, ६, ४०; विध
२३, ८; -यानि अप्राय ३, ७;
-†येन कौसू ४६, ५५; अप १,
३६, ७.

अइममयी- -यीभिः या ४, १९.

अइम-र^f- पा ४, २, ८०.

अइम-रथ^g- पाग ४, १, १०५;
-थाः^h बौश्री ४६ : २.

आइमरथ्य^g- पा ४, १, १०५;
पाग ४, १, ७३; -थ्यः आश्री ५,
१३, १०; ६, १०, ३०; आपश्री ५,
२९, १४; ९, ३, १५; ४, ७; ६,
३; ८, ३; १०, १२; १६, ६; १९,
१४; १४, १३, ८; २२, १३; १९,
६, १०; ८, ८; १०, ४; २१, ३,
७; ६, २; १५, ६; १९, १९;

भाश्री १, १४, ७; १६, ७; २०,
१५; २, ११, ७; ४, ३, १; २२,
१२; ५, १३, १४; १७, ७; २१,
१३; ९, २, १७; ५, २; ६, ३; १३;
७, ७; ८; ८, २; ९, ६; ११;
१५; १५, १२; १६, ८; १७,
१०; हिश्री २३, १, २०; ३५;
५४; भाय १, २० : १२; अप्राय
३, ५; ७; ८३; मीसू ६, ५, १६;
-थ्यम् हिपि १० : १५.

आइमरथी- पा ४, १,
७३.

आइमरथ- पा ४, २,
१११.

अइम-लवण-मणि-शाण-कौशेय-क्षौ-
मा(म-अ)जिनⁱ- -नानि वाध
२, २४.

†अइम-वर्मन्^c- -र्मं वैताश्री २९, ११;
कौसू ५१, १४; अप ३२, १, ५;
अश्र ५, १०; अपं २ : ४३;
अशां २२, २.

अइम-वह्नि-हिरण्य-गोमयो(य-उ)

दुग्बरपत्र-तिला(ल-अ)अत^l-
-तानि वैयु ५, ६ : १७.

अइम-विधि^o- -धिम् अप २१, ३, ४.

अइम-संदाव^c- -वम् बौश्री ९, ४ :
४; १०, ७ : ५.

अइमा(इम-आ)क्रमण- -णात् कौय
१, ८, २५^a.

अइमा(इम-आ)खण- -णः शांश्री ६,
३, ८.

अइमा(इम-अ)र्म- पा ६, २, ९१.

?अइमास्तैः[†] वाधूश्री ४, ५९[†] : २.

†अइमा(इम-आ)स्य^b- -स्यम् या
१०, १३^c.

अइमीय- पा ४, २, ९०.

अइमो(इम-उ)त्तर^b- -राणि कौसू
३६ १७; -रान् कौसू ३८, १३.

अइयमान- √अशु (भोजने) द्र.

अ-इयेता(त-अक्ष >)क्षी^k- -क्षी
काश्री ७, ६, १२.

अ-श्रद्धान- -नम् वाधूश्री ४, ६२ :
१४; आम्रिय २, ५, १ : २; जैय
२, ९ : १; -नस्य बौश्री २९,
८ : १०; वैश्री १५, ११ : २[†];
कौसू ७३, १८[†]; बौध १, ५,
६३[†]; -नाय बौध १, ५, ६२.

अ-श्रद्धा- -द्वया बौध १, ५, ६४;
-द्वा बौश्री २९, ८ : १२; आपमं
२, ५, ४[†]; काय ४१, २३[†]; बौध
१, ५, ६४; अश्र १२, २[†].

अ-श्रवण- -णात् लाश्री १०, ११, ५.

अश्रवणा(ण-अर्थ>)थी^h- -थी
हिश्री ११, १, २.

अ-श्रवणीय- -यात् शांयु ४, ७, २६^m.

†अ-श्रात- -तः आपश्री १३, ३, ४;

a) सप्र. अइमक्रमणादि<>अइमाक्रमणात् इति पाभे. । b) विप. । बस. । c) षस. । d) वैप
१, ४८३ b द. । e) *तीः इति पाठः? यनि. शोभः । f) =रेत-विशेष-? । g) =ऋषि-विशेष- । व्यु. ? । h)
बहु. <आइमरथ्य- । i) द्वस. । j) पाठः? अइमास्तैः इति शोभः संभाव्येत । k) विप. । तस.>
बस. । l) अइ^o इति पाठः? यनि. शोभः (तु. मूको., सप्र. आपश्री १२, ८, १४ च) । m) पाभे. पृ १०३ ३[†] द. ।

माश्रौ ४, ५, ४; वैश्रौ १६, ३ :
१३; हिश्रौ ९, १, ३२.
अ-श्राद्ध^१- -द्वेन आपध १, १०, ३०;
विध १, ३, ५७.
†अ-श्रान्त- -न्तस्य अप १४, १, १२;
१३; १५, १, ३; अशां १८, ७;
अत्र १९, २५; -न्ताय शाश्रौ
१५, १९, १.
†अ-श्रावित- -तम् वाश्रौ १, ३, ७,
२०.
अश्रि^२- पाउ ४, १३८; -श्रिः काश्रौ
६, ४, ११; आपश्रौ ७, १४, १४;
माश्रौ ७, १२, २; वैश्रौ १०, १२ :
१; २०, ३९ : ९; हिश्रौ ४, ३,
३८; -श्रिमिः माश्रौ १, ८, १,
१७; -श्रिम् आपश्रौ ७, १०, ३;
वौश्रौ ४, ४ : २४; २६, २३ :
३; वैश्रौ १०, ८ : १३; ११ :
१०; हिश्रौ ४, २, ४८; ५६^३;
-श्रीः आपश्रौ १६, ४, ९; वौश्रौ
१०, ५ : १८; २५, ३४ : १;
माश्रौ १, ८, १, १७; हिश्रौ ११,
१, ५२; -श्रीणाम् आपश्रौ १६,
५, २; वाश्रौ २, १, १, ३८; हिश्रौ
११, १, ५६; -अग्रा वैश्रौ १०,
१८ : १४.
अश्रि-मत्^४- -मत् या ६, २३.
अश्रि-संधि^५- -धिषु वौश्रौ १०, ५ :
१९.
अ-श्री^६- -श्रिया वाधूश्रौ ४, १५ :
१.
अश्रु^७- पाउ ५, २९; -श्रु शाश्रौ ३,
४, १२; आपश्रौ ९, ४, १६; १०,
१४, १; वौश्रौ १३, ४३ : १७;

२८, ९ : १७; भाश्रौ ९, ६, १२;
वैश्रौ २१, २ : ४; हिश्रौ १५, १,
८५; वौश्रौ १, ६, २६; ४, १, ११;
अप्राय ५, ४; विध ७९, २०;
-श्रूणि सु ७, ३.
अश्रु-कर्मन्^८- -र्मणि आपश्रौ ९, ४,
१७; हिश्रौ १५, १, ८५.
अश्रु-पात^९- -तः आमिष्ट ३, ४, १ :
१८^१; वौपि ३, २, ९; अप ७०^३,
११, २९; -तम् विध २२, ६१;
-ते आश्रौ ३, १२, १५.
अश्रु-मुख^{१०}- -खाः सु ७, ४.
१अ-श्रुत^{११}- -तः आमिष्ट ३, ९, ३ : १७;
-तम् आपमं २, ५, ६^१; काष्ट
४१, २३^१; वौपि २, ७, १५;
गोष्ट ३, ५, २८.
१अश्रुत-त्व- -त्वात् मीस् ८, १,
२९; १०, ७, २९; १२, १,
३९.
२अ-श्रुत^{१२}- -तः कप्र ३, ६, ६; -तम्
वाध ६, ४४.
२अश्रुत-त्व- -त्वात् आपश्रु ८, ११;
हिश्रु ३, १५.
१अ-श्रुति^{१३}- -तेः काश्रौ १, ८, १२;
२५, १४, ६; मीस् ४, ४, ३४^६;
७, २, ११; -तौ मीस् ४, ३, १६;
१०, ८, ६४.
अश्रुति-त्व- -त्वात् मीस् ८, १,
२२; ३, २; २०; ९, १, १७; २४;
१०, १, ४५; ५८; ३, ५३; ४,
१८; ५, १५; १६; २०; ८, ५९;
११, १, १९; २४; २, ६; १२, ३,
१२; ३३.
अश्रुति-धर- -रौ शुप्रा ४, १४८.

अश्रुति-संयोगा(ग-अ)विशेष^{१४}-
-वात् मीस् २, ४, १६.
२अ-श्रुति^{१५}- -ति ऋप्रा ६, ४०.
अ-श्रुति-भूत^{१६}- -ताः लाश्रौ १०,
९, १.
अश्रुतिभूत-त्व- -त्वात् मीस् १०, ७,
२१; ११, ३, १६; ४, ३५; १२,
२, ३०.
अ-श्रुति-विप्रतिषेध^{१७}- -धात् मीस्
३, ६, २४.
अ-श्रुयमाण- -णे मीस् १०, ४, १५.
अ-श्रोत्रिय^{१८}- -यः कौस् ७३, १७^१;
-यम् वाध ५, १०; शंघ ३०३;
-यस्य शांष्ट ४, १२, ४^१; वाध
२८, १७; गौघ ५, ३२; -याः
अप ४१, ३, ३; वाध ३, १;
-याय काश्रौ १०, २, ३३; हिश्रौ
१०, ४, ७१; कौष्ट ३, ११, ३^१;
आमिष्ट ३, ७, ३ : २६; वौपि २,
२, ३; अप ४०, १, २; वाध
३, ८.
अ-श्रुग्राघा-कर्मन्^{१९}- -र्मणः या ४,
९.
*अ-श्री (=श्री-)->अश्ली-ल, ला^{२०}-
-लम् विध ७१, ७२; या ६, २३;
-लस्य वृदे ६, १५३; -^१ला^२
आपमं १, १७, ८; अत्र १४,
१.
अश्लील-नामन्^{२१}- -मन् भाष्ट
१, १२ : १४.
अश्लील-भाषण^{२२}- -णम् शुअ३,
३२.
अश्लील-दृढरू (प>) पा^{२३}- पा
६, २, ४२.

a) तस. उप. =श्राद्धाज- । b) वैप १, परि. च द्र. । c) तु. SEY [७४]; वैतु. ल. अ-श्रीमत्-
इति ? । d) षस. । e) तस. । f) विप. । बस. । g) षतः इति प्रयासं. । h) षस. > षस. । i) तस. >
बस. । j) सप्र. षस्य <> ष्याय इति पाभे. । k) विप. । तस. > बस. । l) पाभे. वैप १ परि. अश्रीरा
टि. द्र. । m) विप. (दर्श- [=मा २३, २२-३१]) । बस. । n) कस. ।

अश्लेषा^०- -वा अप १, ४८, ४; ३१,
८, ६; -वाः अप १, ३, १; ३३,
११; ३८, २१; अशां ८, २;
-वाभ्यः शां १, २६, ७; अशां
१२, २; -वासु अशां २, २;
-वासु अप १, ९, ८; २७, २; ४३,
७; अशां १३, २; -०षे अशां
२, २.

अश्लेषा-भाग- -ने अप १, ६, ९.

अ-ऋण, णा^०- -णः हिश्रौ ४, ३, १;
आपमं १, १३, ११; हिश्रु १, २५,
११; -णया तैप्रा १३, १२१.

१ अश्व, श्वा^०- पाउ १, १५१; पाग
४, १, ४; ४, १०; ५, १, ४;
३९; ५०; ४, १३८; -१०श्व
शांश्रौ १२, १६, १; बौश्रौ २८,
६; १०; वैश्रौ २०, ३५; १; -श्वः
आश्रौ ३, ४, १०××; शांश्रौ; निघ
५, ३; या १, १; १२०; २, २७०;
४, १३; २७१; ७, ४; ९, १; १२१;
पावा ६, १, ८४; -श्वम् आश्रौ
१२, ७, १०; ८, १४××; शांश्रौ;
१२आपमं १, ९, १००; हिश्रु
१, १८, ५१; या १, १३; २०१;
४, १३; ७, २०१; ११०, १५;
३२; -श्वयोः या ४, १५; -श्वस्य,
>स्या काश्रौ २०, ७, १××;
आपश्रौ २०, ४, ५^{२०}; माश्रौ ५,
२, ६, ६^२; या २, २; ४, १३; पा
५, २, १९; -श्वा काश्रौ २६,
३, ८१; आपश्रौ; -श्वाः आश्रौ
८, ३, १४१; शांश्रौ; पाग

१, ८, १०१; आमिश्रु १, ५,
४; ५०१; भाग १, १८ :
८१; हिश्रु १, २२, ९१; जैश्रु १,
२२ : ७१; कौश्रु १३३, ३१;
निघ १, १४; या ४, १३; ५, २८;
९, २४; १०, ३१; -१०श्वः^० शांश्रौ
१२, १५, १; आपश्रौ ९, १७, १;
हिश्रौ १५, ७, २३; द्राश्रौ ७, ३, २;
लाश्रौ ३, ३, २; आपमं १, ९,
१; बौश्रु १, ५, ७; -श्वान् काश्रौ
१४, ३, ३; १८, ६, ४; आपश्रौ;
१या १, १७; ४, ११;
५, २६; ९, २०; -श्वानाम्
आश्रौ ९, ९, १४; बौश्रौ; निघ
१, १४; -श्वाम्याम् लाश्रौ ८, ६,
११; -श्वाम् आश्रौ १२, ६, ३०;
शांश्रौ; -श्वाय शांश्रौ १६, १,
१४××; काश्रौ; या ९, १९;
-१श्वसः काश्रौ १९, ६, २१;
आपश्रौ; -श्वसु द्राश्रौ ५, ३, २९;
लाश्रौ २, ७, २६; -श्वे काश्रौ ४, ८,
२३××; आपश्रौ; या ९, ३९१;
-१श्वेन शांश्रौ १६, ९, १०;
१८, ११; काश्रौ; -१श्वेभिः आपमं
२, १५, २०; पाग; -१श्वेभ्यः
द्राश्रौ ५, ४, १५; लाश्रौ २, ८,
१५; तैप्रा ११, १४; -१श्वेषु
आपश्रौ ४, १४, ४; ९, १४, २;
बौश्रौ; -१श्वैः आपश्रौ ९, १४, १;
१७, १; बौश्रौ; या ४, १८; १२, १;
-श्वौ आपश्रौ १८, ४, १४^१; बौश्रौ.
१ अश्व^० पा ४, २, ४८; -श्वः

याशि १, ९; -श्वम् जैश्रु २, १ :
३५; शुअ ३, ३४; ३५; या १२,
१०; -श्वानि शुअ ३, २७.

आश्रौ^०- -श्वौ शुअ ३, ३०;
-श्वीम् शुअ २, १६; २२; ३,
३३.

आश्विक- पा ५, १, ३९; -कः
वैध ३, १२, १३^१.

१ अश्वानि^०- -नम् बौश्रौ १५,
१ : २^१; ३; २६, १० : १^१.

आश्वीन- पा ५, २, १९.

आश्व्य^१- -श्व्यम् वृदे ३, २३;
-श्व्येन वृदे ३, २१; २२.

१ अश्व-क^०- -कः बौश्रौ १५, २९ :
३२; ३० : १.

अश्व-कशा^०- -शायाः या ९, १९.

अश्व-कर्ण^०- -र्णे काश्रौ २०, २, ९.

अश्व-क्रन्द^१- -न्दः सु २३, ५.

अश्व-क्रय-विक्रय^०-> ० यिन्- -यी
वैध ३, १२, १३.

१ अश्वक्रान्ताग्निमान^०- -नेषु अप
७०^३, १०, ३.

अश्व-क्षय- -ये अशां १७, ५.

अश्व-खर^०- -रयोः काश्रौ १६, ३, ९.

अश्व-गज^०- -जम् अप ४, १, १४.

अश्व-गार्दभ^०- -भयोः बौश्रौ १७,
२८ : ४; -भौ बौश्रौ १०, १ :
१७; ४ : २४; २५, २९ : २;
माश्रौ ६, १, १. ४१; वैश्रौ १८,
१ : ५६.

अश्व-गार्दभा(भ-अ)ज^०- -जाः काश्रौ
१६, २, ४.

- a) =नक्षत्र-विशेष-। व्यु. ?। अ-इले^० इति MW. । b) वैप १, परि. च द. । c) पाभे. वैप १ परि.
अश्वम् खि २, ६, २ टि. द्र. । d) सप्र. अश्वस्य स्तोक्रान् <> अश्वस्तोक्रान् इति पाभे. । e) पाभे. वैप १ परि.
अश्वः खि ५, ११, २ टि. द्र. । f) सप्र. अश्वौ, धुश्रौ <> अश्वयुग्मौ इति पाभे. । g) विप., नाप. (अश्व-समूह-
[पा.]) । तस्येदमीयाद्येषु प्र. । h) विप. (ऋच्-) । i) =संकरजाति-विशेष-। j) विप. (शिरस्-) । प्राग्दी-
व्यतीयः ण्यः प्र. उस्. (पा ४, १, ८५) । k) षस. । l) =द्वैत्य-विशेष-। बस. । m) षस. > द्वस. ।
n) अर्थः समासश्च ? । o) द्वस. । p) समाहारे द्वस. ।

अश्व-गो- > अश्वगो-जा^a- -जाः
या १४, ३१.
अश्व-घासा(स-आ)दि- -दीनाम्
पावा २, १, ३६.
अश्व-चतुर्दि(श>)शा^b- -शाः
बौध्रौ १८, १ : १.
अश्व-चरित, ता^c- -तानि आपश्रौ
२०, ६-७, ३; बौध्रौ १५, ६: २२;
वाधूश्रौ ३, ८३ : ३; हिश्रौ १४,
२, ३; -?ताम्^d वाश्रौ ३, ४, १,
३३; ४१.
अश्व-जम्बूक-बिडाल-ऋश्य-तरक्षु-रा-
सभो(भ-उ)ष्ट-शूद्र^e-वध- -धे
काध २७२ : २९.
†अश्व-जित्^f- -जित् आपश्रौ १६,
१८, ६; २१, ४, २; माश्रौ ६, १, ५,
३८; वैश्रौ १८, १५ : १८; हिश्रौ
११, ६, ३०; हिश्रु १, २८, १.
अश्व-तर^g- पा ५, ३, ९१; -रः
आपश्रौ २२, ५, ५; हिश्रौ १७,
२, ३३; कौस् ११५, १; -रम्
आपश्रौ १३, ५, ३; बौध्रौ २४,
५ : २०; -रस्य अप्रा ३, ४, ११;
-†राभ्याम् लाश्रौ ८, ६, ११;
-रेषु दाश्रौ ५, ३, २९; लाश्रौ
२, ७, २६; -रैः बौध्रौ १५, ८ :
५; -रौ कौस् १०७, २१.
अश्वतरी- -री आपश्रौ १४,
३, ७; हिश्रौ १७, १, ३६; पाश्रु
३, १३, ५; -रीभिः बौध्रौ १५,
८ : ५; -रीम् माश्रौ २, ५, ३,
९; हिश्रौ १०, ५, ५१; -रीषु
दाश्रौ ५, ३, २९; लाश्रौ २, ७,
२६; -र्यैः अप्रा ३, ४, ११;
-र्याः आपमं २, २२, २१; हिश्रु

१, १५, ३; -र्याम् बौध्रौ २, ५ :
२०१.
अश्वतरी-मूत्र- -त्रम्
कौस् ३६, ३३.
अश्वतरी-युक्त- -क्तम्
विध ९२, २८.
अश्वतरी-रथ- -थः आश्रौ
९, ११, २३; आपश्रौ २२, २, २१;
बौध्रौ १८, ३५ : ८; -थान्
काश्रौ २२, २, २५; आपश्रौ २०,
२, ६; बौध्रौ १८, ४९ : १४;
वाधूश्रौ ३, ६९ : ३; हिश्रौ १४,
१, १९; -थैः बौध्रौ १८, ४९ :
९; १८.
अश्वतर-खरो(र-उ)ष्ट^h- -ष्टान्
वाध २, ३५.
†अश्वतर-गर्दभⁱ- -भौ आपश्रौ
१४, ११, ३; हिश्रौ १०, ६, ९.
अश्वतर-गज-वाजिन्^j- -जिनः
शंघ ३०७.
अश्वतर-वत्स^k- -त्सम् वाश्रौ ३,
२, ३, ४०.
अश्वतरा(र-अ)श्व^l- > आश्वतरा
श्वि- -श्विः शुअ २, ४२३.
अश्व-तूपर-गोमृग^m- -गाणाम्
आपश्रौ २०, १८, १५; १९, २;
-गान् काश्रौ २०, ६, २; आपश्रौ
२०, १३, ११; १७, ८; २१, ६.
अश्व-नृण-हारिन्ⁿ- -री वैध ३,
१२, २.
अश्व-तेजनी^o- -नीम् बौध्रौ १५,
३१: २६; ३४: ७; ३५ : १०; १२;
-न्यै बौध्रौ १५, १५ : ८.
अश्व-तेदनि^p- -निम् शाश्रौ १६,
१८, १९.

अश्व-त्रिरात्र^q- पाग ६, २, ८१; -त्रः
शाश्रौ १६, २२, ३; -त्रे द्राश्रौ
६, ४, ५; ९, ४, १५; लाश्रौ २,
१२, ६; ३, ८, ९; निसू ४, ९ :
१७; ९, ७ : २०.
अश्व-द- -दः विध ९२, ११.
अश्व-दक्षिणा- -णा मीसू १०, ३,
६५.
अश्व-दानु- -ता अत्र १४, १, १०.
अश्व-देवता^r- > व(त्य>)व्या-
-त्या शुअ १, ५६१; -त्याः शुअ
३, २६; -त्याम् शुअ ३, २३;
-त्ये शुअ १, ५६६.
अश्व-देवत^s- -तम् शुअ ३, ११.
अश्व-दामन्^t- -न्ना हिश्रौ २२,
६, ६.
अश्व-द्वाद(श>)शा^u- -शाः काश्रौ
२२, ५, १६; आपश्रौ २२, ७, १२;
बौध्रौ १८, २ : २; हिश्रौ १७,
३, १२^m; लाश्रौ ८, ७, ६; निसू
७, १ : १३.
अश्व-नामन्^v- -मभिः बौध्रौ १५,
७ : १२; हिश्रु १, १२, ३;
-मभ्याम् द्राश्रौ ५, ३, २३;
लाश्रौ २, ७, २०; -मानि आपश्रौ
२०, ५, ९; ११, १; द्राश्रौ ५, ४,
१७; लाश्रौ २, ८, १७; निघ १,
१४; या २, २७.
अश्व-पतन्^w- -नैः या ११, १४.
अश्व-पति- (> आश्वपत- पा.)
पाग ४, १, ८४.
अश्व-पद्^x- -दम् वैश्रौ १८, १ :
३१; -दे काश्रौ १६, २, २२;
माश्रौ ६, १, १, २०.
अश्वपदिक- -कम् बौध्रौ २, ७ :

a) पृ १०९ j द्र. । b) विप. । बस. । c) भाप. > नाप. (उपचारतः तद्धिमिल-] हविर्विशेष-) ।

d) पाठः ? -तानि इति श्लोचः । e) द्रस. । f) वैप १, परि. च द्र. । g) षस. । h) = ऋषि-विशेष- । i) विप. ।
षस. > उस. । j) षस. उप. अर्थः ? । k) = याग-विशेष- । l) कस. । m) ष इति पाठः ? यनि. श्लोचः (तु. आपश्रौ.) ।

१९.
अश्व-परिणयन^a - नम् हिश्रौ १२, १, १.
†अश्व-पर्ण^b - णाः वृदे ५, ११३;
 -णैः या ११, १४०.
अश्व-पशु^c - ऋः आपश्रौ १, ३, १:
 -शुम् आपश्रौ १, ३, २; बौश्रौ
 १, २ : १; †२०, २ : १६; १८;
 भाश्रौ १, ३, ५; वाश्रौ १, २, १,
 १२; वैश्रौ ३, ३ : ९; हिश्रौ १,
 १२, २२; -श्राम् बौश्रौ २०, २ :
 १७.
१अश्व-पाद^d - दम् वैताश्रौ ५, १७.
२अश्व-पाद^e - पा ५, ४, १३८.
अश्व-पाल^f - लः वैध ३, १२, २;
 -लाः वाधूश्रौ ३, ७५ : ८;
 -लानाम् शाश्रौ १६, ४, ५.
अश्वपाली - (> आश्वपालिक-
 पा.) पाग ४, १, १४६.
अश्व-पुह(ष>)वी^g - व्यौ काश्रौ
 २४, ६, ८.
अश्व-पू(ण>)णा^h - णाम् मागु
 २, १३, ६१.
अश्व-पूर्व, वार्ⁱ - र्वाः काश्रौ १६, २,
 ४; वाश्रौ २, १, १, ७; ६, ७;
 -वाम् काश्रौ १७, ३, २२.
अश्वपेज L, य-ज^j - (> आश्वपेजि-
 L, यिज् - पा.) पाग ४, ३, १०६.
अश्व-प्रतिग्रह^k - हे हिश्रौ २२, ५,
 ११.
अश्व-प्रतिष्ठा^l - > अश्वप्रतिष्ठा-
 रथसूत्र-वास्तुविद्याध्ययन-
 वृत्ति^m - ता - ता शंघ ७६.
अश्व-प्रथम, माⁿ - माः आपश्रौ ५,
 १४, ५; १५, १, ७; १६, २, ३;

२१, ४; भाश्रौ ५, ८, १; ११, १,
 १०; माश्रौ १, ५, ४, ७; ६, १, १,
 ३६; वैश्रौ १३, १ : ११; १८, १ :
 १९; १६ : ३१; हिश्रौ ३, ४,
 २८; ११, १, १४; ३९; ७, ५;
 २४, १, ५.
अश्व-प्रभृति - तीन् काश्रौ १६, २,
 ९; ३, ८; -तीनि या ७, ४.
अश्व-प्रवाह^o - ह्यम् आज्यो ८, ७.
अश्व-प्रायश्चित्त^p - त्तानि हिश्रौ
 १४, २, २२.
अश्व-प्रोक्षण^q - णम् काश्रौ २०,
 ६, ७.
अश्व-प्लावन^r - नः बौश्रौ २६,
 १० : ९.
अश्व-भरण^s - णान् या ९, २४.
अश्व-भार - (आश्वभारिक - पा.)
 पाग ५, १, ५०.
अश्व-महि(ष>)वी^t - व्योः गौध
 १२, २१.
अश्व-मिथुन^u - नम् गोश्रु ३, १, ५.
१अश्व-मुख^v - खानि द्राश्रौ ५, ३,
 २३; लाश्रौ २, ७, २०.
२अश्व-मुख^w - खः सु २३, ४;
 -खाः वैश्रौ १, १२ : १४.
१†अश्व-मेघ^x - घः ऋश्रु २, ५, २७;
 वृदे ५, १३; ३१; -घेन वृदे ५,
 ८३.
२अश्व-मेघ^y - घः शाश्रौ १६, २,
 ३४; ८, ३; १४; २३; काश्रौ २०,
 १, १; आपश्रौ २०, २३, १३; बौश्रौ
 १५, ३८ : १५^z; २४, ७ : १;
 ११ : १; वाधूश्रौ ३, ९२ : ९;
 वाश्रौ ३, ४, ५, ३१; हिश्रौ १४,
 ५, १८; लाश्रौ ९, ११, ६; वैताश्रौ

३६, १४; ४३, ४१; बौश्रु ३, १२
 २४; वाश्रु ७, १३; अप्राय ६, ३१;
 शंघ २५३; विध ५५, ७; वृदे ८,
 ९२; शुभ्र ३, १; -घम् शाश्रौ
 १६, १, १; अप १६, २, ३; शंघ
 ३८१; बौश्रु २ : ९; ५ : ५;
 भाशि १०५^{aa}; -घस्य आपश्रौ
 १०, २६, ९; २०, ५, १५; २२,
 १८, १; बौश्रौ २९, २ : १४;
 भाश्रौ १०, १७, १५; माश्रौ ५,
 २, ११, ४७; हिश्रौ १४, १, ४७;
 वैताश्रौ ३८, १०; ४१, ६; निस्
 ८, ८ : १३; वैश्रु ५, ८ : १२;
 चाअ ४२ : १; -घात् लाश्रौ
 ९, ५, ६; बौश्रु ५ : ४; -घे शाश्रौ
 १६, १८, १०; काश्रौ ६, १, ३१;
 २०, २, १४; आपश्रौ २०, २४,
 १२; २५, २१^{ab}; बौश्रौ १८, ११ :
 २२; २४, ११ : ७; २६, ८ : ५;
 २८, ६ : ११; वाश्रौ ३, २, ५,
 १८; वैश्रौ २०, ३५ : ३; हिश्रौ
 १, १, ५०; ७, २, ५९; १४, ६,
 ११; लाश्रौ ६, ८, १३; अप्राय
 ६, ७; आपश्रु ५, १४^{ac}; २१, १०;
 १३; बौश्रु ४ : १९; हिश्रु २,
 २५; ६, ६८; ७०; -घेन आपश्रौ
 १०, ६, १; शाश्रौ १६, १, १; १०,
 १^{ad}; आपश्रौ २०, १, १; बौश्रौ
 १५, १ : १; वाधूश्रौ ३, ६९ :
 १; ५; ७७ : १; ८८ : ४; ९४ :
 ४; वाश्रौ ३, ४, १, १; ५, ३२;
 हिश्रौ १४, १, १; ६, २; लाश्रौ
 ९, ९, १; वाध २२, ६; शंघ
 २५३; बौध २, १, ४; ३, १०, ८^{ae};
 विध ३५, ६; ३६, ८; ५१, ७६; ८५,

a) षस. । b) विप. । बस. । c) नाप. । उस. । d) दस. (तु. तां २५, १०, २२) पूष. पुंवद्भावः ।
 e) विप. । तृस. । f) व्यप. । व्यु. ? । g) दस. > बस. । h) दस. । i) विप., नाप. (अश्वर-विशेष-) ।
 बस. । j) वैप १, परि. च द्र. ।

६७; गौध १९, १०; -धैः शाश्रौ १६, ९, ७.

आश्वमेधिक^१ -कः शुभ ३, १०९; या ६, २२; -कम् शाश्रौ १६, १०, २; १४, १; काश्रौ १२, ४, २१; २१, २, ९; आपश्रौ २०, २५, १०; हिश्रौ १४, ६, २१; आपध १, २४, २२; हिध १, ६, ७०; -कस्य बौशु २१ : १२; -काः बौश्रौ २४, ३८ : २; -कान् आश्रौ २०, १५, ४, ५; -कानाम् शाश्रौ १६, १२, ८; बौश्रौ २४, १० : ११; -कानि काश्रौ २०, ४, २; ४; आपश्रौ २२, १६, ६; बौश्रौ २३, १२ : ८; शुभ ४, १२०; -केभ्यः बौश्रौ २४, १० : ९.

आश्वमेधिकी -की मागृ १, २३, १४; -कीनाम् वाश्रौ ३, ४, १, ४९.

अश्वमेध-पूता (त-आख्या >) ख्य^१ -ख्याः काश्रौ २०, ८, १८. अश्वमेध-फल -लम् आमिगृ ३, १०, ४ : ३२; बौपि ३, ११, १; वैध ३, ८, ७.

अश्वमेधफला (ल-अ) वासि-
-प्यै वैगृ ३, २१ : १६.

अश्वमेध-वत् काश्रौ २१, १, १४; आश्रौ २०, २४, १४; वैताश्रौ ३७, १०.

अश्वमेध-विद् -विदः वाधूश्रौ ३, ८२ : २; ३.

अश्वमेध-सहस्र -स्रम्, -स्रात् विध ८, ३६.

अश्वमेधा (ध-अ) वभृथ -थः वाध २६, ८; -थम् वाध ११, ७८; २३, ४०; शंघ ३८०; बौध ३, ४, ८; -थे शंघ ३७९; बौध २, १, ५; ४, २, १६; गौध २२, ८; -थेन गौध २४, १२.

अश्वमेधा(ध-अ) वभृथ-स्नान-
-नेन वैगृ २, ३ : ७; सुध ५३.
अश्वमेधिन् -धी वाधूश्रौ ३, ९२ : ९.

✓अश्वय > †अश्वयु -युः या ६, ३१; ऋप्रा ९, १५.

अश्व-यज्ञ^१ -ज्ञाय^१ आमिगृ १, २, २ : २३^१; बौगृ ३, ९, ५^१; मागृ ३, १० : ७.

अश्व-यज्ञ^१ -ज्ञः गोगृ ३, ६, १२; -ज्ञे कप्र ३, ७, १.

अश्व-याजय^१ -याः बौश्रौ प्र ४५ ७.

अश्व-युक्त -क्तः द्राश्रौ १०, २, ७; लाश्रौ ३, १०, ६; -क्तम् काश्रौ २०, २, २१.

अश्व-युग्य^१ -ग्यौ हिश्रौ १३, १, ६१^१.

अश्व-युज^१ - पा ४, ३, ३६; -युक् वेज्यो ३६; -†युभ्याम् कौगृ ४, ३, २; शांगृ ४, १६, २; वैगृ ३, २० : ११; अशां १२, ५; -युजः ऋप्रा ९, २१^१; अप १, ५०, ४; -युजि अप ५५, २, १; अशां १३, ५; -युजौ अप १, १, २; २-

३, १; ५, ४; ८, ९; ११, ५^१; १४, १; ३३, ११; ४१, ६^१; अशां ११, ६.

आश्वयुज^१ - पा ४, ३, ३६; -जस्य पागृ ३, ९, ३; -जे अप १७, १, २; १८, १, १; वैध ३, ५, ११.

आश्वयुजी^१ -जी वैगृ १, १ : ७; ४, ९ : १; गौध ८, १६; -जीम् कागृ ५७, ३; द्रागृ ३, ३, १; -ज्या वैगृ ६, २० : ५; -ज्याः पा ४, ३, ४५; -ज्याम् आगृ २, २, १; कौगृ ३, ६, २^१; ४, ३, १; शांगृ ४, १६, १; पागृ २, १६, १^१; आमिगृ १, ७, ४ : १; कागृ ५७, १; मागृ २, ३, ४; ६, २; वैगृ ४, ९ : १; गोगृ ३, ८, १; कप्र ३, ७, १०; अप १८^१, ९, १; १८^१, १, २; विध ८६, २; ९०, १५; ९४, १२; -†ज्यै कौगृ ४, ३, २; शांगृ ४, १६, २; पागृ २, १६, २.

आश्वयुजक - पा ४, ३, ४५.

आश्वयुजी-कर्मन्^१ -र्म आगृ २, २, १.

आश्वयुजी-पक्ष^१ -क्षेषु लाश्रौ ९, १२, १०^०.

आश्वयुजी-यज्ञ-विहीन-
-ने वैगृ ६, २०, ४.

आश्वयुजी-शुक्ल^१ -क्षेषु काश्रौ २३, ४, ४^०.

a) विप. । तस्येदमीयाद्यर्थे प्र. । b) विप. । तुस. > बस. । c) = १ अश्व-मेध- । व्यप. । d) सप्र.

अश्वयज्ञाय <> शिबिन्ताय इति पाभे. । e) अश्वयज्ञाय इति पाठः ? यनि. शोघः (तु. भागृ.) । f) = २ अश्व-मेध- । g) व्यप. । उस. उप. ✓यज् > याजि > कर्तरि शः प्र. उसं. (पा ३, १, १३८) । h) कस. परनिपातः द्र. । i) पाभे. पृ ४२८ f द्र. । j) वैप १, परि. च द्र. । k) विप., नाप. । l) नाप. (आश्विन-पूर्णिमासी, तत्रविहित-कर्मन्-वा) । m) सप्र. °ज्याम् <> °ज्यस्य इति पाभे. । n) षस. । o) सप्र. °जीपक्षेषु <> °जीपक्षेषु इति पाभे. ।

आइवयुज्य^० - ज्यस्य^० शां ३,
 ११, २; काट ५९, २.
 अइव-युज^० - जे कौस् १४०, २.
 अइव-यूप^० - पाय ऋपा ९, २१५.
 अइव-यो(ग >)गा^० - गाः ऋपा
 ९, २१५.
 १ अइव-रथ^० - थः शांश्रौ १४, ३३,
 २०; ३४, २; ४०, १३; काश्रौ
 १५, १, २०; २२, ५, १०; १०,
 ३०; आपश्रौ २२, १२, ४; बौश्रौ
 १८, ३५ : ७; लाश्रौ ८, ७, ३;
 -थम् शांश्रौ १७, ५, १; १५, १;
 द्राश्रौ ५, ३, २२; १२, ४, १३;
 लाश्रौ २, ७, २०; ४, १२, ८; ८,
 २, २२; अप १५, १, ७; ८; -थान्
 आपश्रौ १८, ३, ५; वैताश्रौ २७,
 ९; -थानाम् आश्रौ ९, ९, १४;
 -थेन आपश्रौ २२, २, २४; हिश्रौ
 ११, १, ३६; -थैः काश्रौ २२, ३,
 ३६; काश्रौसं २७ : ७; लाश्रौ ८,
 ३, १२; -थौ लाश्रौ ९, ४, १३.
 अश्वरथ-दानविधि^० - धिः अप
 १५, १, १.
 २ अश्व-रथ^० - थाः आपश्रौ २२, २,
 १८; हिश्रौ १७, १, ३४.
 अश्व-रश्मि^० - रश्मिभिः या २, १५;
 -श्मीन् वृदे ५, १४.
 अश्व-रूप- -पाणाम् बौश्रौ १५,
 २० : ६; वाधूश्रौ ३, ७८ : २;
 -पाणि आपश्रौ २०, ६, ४; ११,
 १३; हिश्रौ १४, २, ३.
 अश्वरूपि (न् >) णी- -णीम्
 वृदे ७, ३.
 अश्व(श्व-ऋ)र्षभ^० - भः हिश्रौ २२,

४, १७.
 अश्व(श्व-ऋ)र्षभ-वृष्णि-बस्त-
 -स्तान् आपश्रौ १६, ७, १.
 अश्व-लोहित^० - तम् वाश्रौ ३, ४, ५,
 १३; -तेन हिश्रौ १४, ४, ५७.
 अश्व-वडव- पा २, ४, १२; -वम्
 वाश्रौ ३, ४, ३, ६; -वयोः पावा
 २, ४, १२; २६; -वौ पा २, ४,
 २७.
 अश्व-वत् काश्रौ २२, ८, २३;
 आपश्रौ १९, २७, ६; गौध १३,
 २२; या २, २७; मीस् ६, ४, ८^h.
 १ अश्व-वत् - वत् आपश्रौ ६,
 २९, १; १३, २५, ३; हिश्रौ ३,
 ८, १४; भाग २, ४ : ११; ऋपा
 ९, १९; शुपा ३, ९८.
 १ अश्ववती- -ती आमिगृ २,
 ४, १ : १३; काट ११, २^h; भाग
 २, ३ : ६.
 १ अश्ववायाम् वाश्रौ ३, ४, १, ४५.
 अश्व-वाल^० - लान् वैश्रौ ११,
 १० : ८.
 आश्ववाल^० - लः काश्रौ ८, १,
 १०; आपश्रौ ७, ७, ७; १०, ३०,
 ३; माश्रौ १, ८, १, १८; वैश्रौ
 १०, ६ : ९; हिश्रौ ४, ५, ६५;
 -लम् बौश्रौ ६, १० : ५; १८ :
 १५; १७; २० : १४; १७; ३१ :
 २; ५; २५, १२ : ९; १३; माश्रौ
 ७, ६, २; १०, २१, २; वैश्रौ १२,
 २१ : ९; १४, २ : ३; हिश्रौ ७,
 ३, ३६; -लेन बौश्रौ ६, १८ : ३.
 अश्व-विज्ञान^० - नम् हिश्रौ २२, ६,
 १७.

१ अश्व-विद्- -वित् ऋपा ९, १८.
 अश्व-वृष- -षयोः पावा ७, १, ५१.
 अश्व-वज्र^० - जम् बौश्रौ १५, १ :
 १३.
 १ अश्वव्रत^० - तेन लाश्रौ ९, ९, २२.
 अश्व-शर्क^० - कम् बौश्रौ ९, ३ :
 २५; १०, ६ : ३; वैश्रौ १८, १ :
 ७७; -केन आपश्रौ १६, ५, ५;
 माश्रौ ४, १, २१; ६, १, २, १४;
 वाश्रौ २, १, १, ४१; -कैः हिश्रौ
 ११, १, ६०.
 अश्व-शकृत्^० - कृता काश्रौ २६,
 १, २४; -कृति हिश्रौ ११, १,
 ६०; -कृद्भिः काश्रौ १६, ४, ८;
 -कृन्ति हिश्रौ २४, १, १९.
 अश्व-शत^० - तम् आपश्रौ २२, २४,
 ९; वृदे ५, ८०; -ते काश्रौ २०,
 २, १०.
 अश्व-शर्क^० - फम् बौश्रौ १५, ३१ :
 २५; वाधूश्रौ ३, ९८ : १; हिश्रौ
 १४, ४, ३५; -फे वाधूश्रौ ३,
 ९६ : ४; -फेन काश्रौ २०, ८,
 ९; आपश्रौ २०, २२, १; बौश्रौ
 १५, ३५ : १०; २४, ८ : १५;
 वाश्रौ ३, ४, ५, १३; हिश्रौ १४,
 ४, ५८; भाशि ५८५.
 अश्वशफ-बुध्न^० - धम् माश्रौ २,
 ३, १, १५; वैश्रौ १५, २ : १०;
 १२^h; हिश्रौ ८, १, २६; २८;
 -ध्ने आपश्रौ १२, १, १३; माश्रौ
 २, ३, १, १५; वैश्रौ १५, २ : ८;
 हिश्रौ ८, १, २४.
 अश्वशफ-मात्र- -त्रम् आपश्रौ
 १, २५, ४; बौश्रौ २७, ३ : १;

a) = आश्विन-मास- । स्वार्थे व्यञ् प्र. उत्सं. (पावा ५, १, १२४) । b) पाभे. पृ ४३१ । टि. द्र. ।
 c) = अश्व-युज्- । d) वैप १, परि. च द्र. । e) मलो. कस. । f) षस. । g) विप. । वस. । h) पाठः ?
 अर्थवत् इति प्रयासं. प्रभृ. । i) वत्तः इति पाठः ? यनि. शोधः (तु. आमिगृ; हिगृ १, २७, ३ इवावती इति च
 पाभे.) । j) विप. । वैप १ द्र. । k) = साम-विशेष- । व्यु. ? । l) अणुशा इति पाठः ? यनि. शोधः ।

भाश्री १, २६, २; वाश्री १, ३, १,
२१; हिश्री १, ६, ४५.
अश्वशफमात्री- -त्रीम्
आपश्री ७, ५, १; हिश्री ४, १,
६३.
अइव-शाला^१- -लाम् बौश्री १५,
१ : १२; २ : १३; -लायाम्
बौश्री १५, १३ : १; १८ : ३.
अइव-शिरस्^२- -रः माश्री ६, १,
७, २८; वाश्री २, १, ७, ११.
अइव-शिक्ष^३- -भम् काश्री २०, ६,
१६.
अश्व-शूकर- -रौ शंघ ३०८.
अश्व-शेष-श्रपण- -णम् काश्री २०,
७, २७.
अश्व-पङ्कव- -वन् पावा ५, २,
२९.
अश्व-संस्तुति^४- -तौ वृदे ३, ५१.
अश्व-संज्ञपन^५- -नम् काश्री २०, ६,
१०.
अश्व-सनि^६- पाग ८, ३, ११०;
-फनिः आश्री ६, १२, २; ११;
शाश्री ८, ८, ६; ९, ४; काश्री १०,
८, ६; बौश्री ८, १७ : १८; जैश्री
२० : १२; वैताश्री १९, १६;
तैप्रा ११, १७; -निम् काय
३२, ३१.
अश्व-सहस्र^७- -स्रम् शाश्री १६, ३०,
१०; आपश्री २२, २४, ९; बौश्री
१६, ३२ : ८; हिश्री १७, ८,
३६.
अइवसहस्र-दक्षि(णा >)ण^८-

-णः बौश्री १६, ३२ : ५.
†अइव-सा^९- -साः अप्राय ६, ३.
अइव-साद^{१०}- -दः आपश्री २२, ४,
५; हिश्री १७, २, ६.
अइव-सारथ्य^{११}- -थ्यम् विध १६,
१३.
१अइव-सूक्त^{१२}- > °क्तिन्^{१३}- -क्ती
साश्री १, १२१-१२३; ३८२;
३८३; २, ९९५.
आइवसूक्त^{१४}- -क्तम् जैश्री
२२ : १६; विध ५६, १९.
२अइवसूक्त^{१५}- -क्तम् वाध
२८, १४; शंघ १०५; -क्तेन
आपश्री ६, १९, ९.
अइव-स्तुति^{१६}- -तयः शुअ १,
५६२; -तिः ऋअ २, १, १६२;
शुअ ३, ४; २०; २८; ५३; -तीः
शुअ ३, ११०.
अइव-स्तोक^{१७}- -कान् हिश्री १४,
१, ४०^{१८}.
अइवस्तो(क्य >)क्या^{१९}-
-क्याभिः वाश्री ३, ४, १, २८.
अइव-स्तोम^{२०}- > °मीय- -यम्
शाश्री १६, २२, ५^{२१}; आपश्री
२०, १२, १०^{२२}; हिश्री १४, ३,
५८^{२३}; ४, ५६^{२४}; शुअ ३, ५३^{२५};
-यान्^{२६} आपश्री २०, २१, ११;
बौश्री १५, २९ : १५; ३५ : ७.
अइव-स्थ- -स्थाः अप्रा ६१, १, ९.
√अइवस्य पा ७, १, ५१.
अइव-स्रवण-विरम- -मात् काश्री
२०, २, ५^{२७}.

अइव-हस्ति-रथ-संवाहन^{२८}- -नम्
वैध ३, १२, ५.
अइव-हिरण्य^{२९}- -ण्ये द्राश्री ७, १,
१६; लाश्री ३, १, १७.
अइवा(श्व-आ)क्रान्त^{३०}- -न्ते वाश्री
३, ४, ३, ८.
अइवा(श्व-आ)गमन^{३१}- > °नी-
(य >)या^{३२}- -या वाधूश्री ३,
७७ : ३; ४; -याम् वाधूश्री ३,
७७ : २.
अइवा(श्व-अ)ङ्ग^{३३}- -ङ्गानि बौश्री
१५, २० : ५.
अइवा(श्व-अ)ज-गवे(गो-ए)डक^{३४}-
-क्तम् मागृ २, १३, ६^{३५}.
अइवा(श्व-अ)ज(न >)नी^{३६}- °नि
आपश्री १८, ४, १६; बौश्री ११,
७ : ३२; वाश्री ३, १, २, २; हिश्री
१३, १, ५०; या ९, २०; -नी
वैश्री १७, १३ : ६; वृदे १, १११;
निघ ५, ३; -नीम् आपश्री
१८, ४, १६; २०, १६, १२^{३७}; बौश्री
११, ७ : ३२; हिश्री १३, १,
५०^{३८}; १४, ३, ३७^{३९}; वैश्री १७,
१३ : ६; या ९, १९^{४०}.
अइवा(श्व-आ)दि^{४१}- -दीन् काश्री
२०, ५, ८; -दीनाम् अप्रा ३, ३,
१५; -दौ काश्री २०, ६, ३^{४२};
शुप्रा ३, १४६.
अइवा(श्व-अ)नृत- -ते वाध १६,
३४; बौध १, १०, ३५.
अइवा(श्व-आ)पद्^{४३}- -पदि काश्री
२०, ३, १२.

a) षस. । b) वैप १, परि. च द्र. । c) विप. । बस. । d) ऋदि-विशेष- । e) =साम-
विशेष- । अण प्र. स च डित् द्र. (पावा ४, २, ७) । f) प्र. लुक् इति पूर्वाद् विशेषः (तु. पाम ४, ३, ६६) । g) पाभे.
पृ ४२८ f द्र. । h) =ऋच् । तत्रभवीयः यत् प्र. (पा ४, ४, ११०) । i) =हवन-विशेष- । j) =सूक्त- ।
k) °विरमणात् इति कर्कः । l) द्रस. > षस. । उप. =शुश्रूषा- । m) द्रस. । n) विप. । तुस. । o) =इष्टि-
विशेष- । p) समाहारे द्रस. । q) °निम् इति पाठः ? यनि. शोधः । r) पइवादौ इति पाठः ? यनि. शोधः । (I.
चौस. Web. च) । s) षस. उप. =रोग- ।

अश्व(श्व-अ)पहारक- -कः विध
४५, १४.
अश्व(श्व-अ)भाव- -वे काश्रौ ४,
९, ११; १७, ३, २०; २२, २,
१२; वैश्रौ १, १३ : ३; हिश्रौ
३, ४, ३५; द्राश्रौ ७, १, ८; लाश्रौ
३, १, ८.
अश्व(श्व-अ)भिधा(न >) नी^१-
-नीम् आपश्रौ १६, २, १; वाश्रौ
२, १, १, ५; ३, ४, १, १४; वैश्रौ
१८, १ : १६; हिश्रौ ११, १, १२;
भाशि ५११; -न्याम् वाधूश्रौ ३,
६९ : ३६.
✓अश्वाय पा ७, ४, ३७; पावा ७,
४, ३५.
†अश्वायत्- -यन्तः आश्रौ २,
२०, ४; शाश्रौ ३, १८, १६;
आपश्रौ १७, ८, ४; वाश्रौ २, १,
८, ५; वैश्रौ १९, ५ : ४७; ऋप्रा
९, १४; शुप्रा ३, १२९.
‡अश्वया यामी^२ शाश्रौ १२, २१, २.
अश्व(श्व-आ)रूढ- -ठः अप १४,
१, १०.
अश्व(श्व-आ)रोह^३- -हम् अप १,
४, ३७.
अश्व(श्व-आ)रोहण- -णम् पागृ
३, १५, ४.
†अ(श्व>)श्वान्त- -वत् शाश्रौ
६, १०, ८; आपश्रौ १६, ३४, ४;
वैश्रौ १८, २१ : ३६; हिश्रौ ११,
८, १५; आपमं २, १५, १; पागृ
३, ४, ४; कौसू ५, २; ९०, १८;
अप्राय २, ६; -वति आश्रौ ६,
४, १०; ऋअ २, १, ८३; अअ
२०, २५; -वते वैताश्रौ १४, ७.

†अश्वान्ती- -ती कौगृ ३, २, ६;
शांगृ ३, ५, १; पागृ २, १७, ९;
३, ४, ४; हिगृ १, २७, ३; -तीः
आपमं १, १४, ७; -तीम् कौसू
८२, १०; ऋप्रा ९, ११; शुप्रा ३,
९७; तैप्रा ३, २; -वत्या आश्रौ
४, १५, २; शाश्रौ ६, ६, २.
अश्व(श्व-अ)वि- -व्योः काश्रौ १७,
५, १५.
अश्व-श्रुति^४- -तिः तैप्रा १२, ७.
अश्व (श्व-अ)श्वतर- -राभ्याम्
काश्रौ २२, ४, १७; लाश्रौ ८,
६, १०.
अश्विक- पा ४, २, ८०^०; ४, १०.
‡अश्विन^५- -श्विनम् आपमं २,
११, ६; या ७, ७; -श्वो बौश्रौ
३, २२ : १३; माश्रौ १, ४, ३,
१९; हिश्रौ ६, ४, ३१; साअ १,
२७७.
अश्वीय- पा ४, २, ४८; ५, १, ४.
अश्वै(श्व-ए)कविं(श>)शा^६- -शाः
काश्रौ २२, २, १८
अश्वो(श्व-उ)ष्ट- -ष्टाणाम् वृदे
६, ५२.
अश्वो(श्व-उ)ष्ट-खरा(र-अ)जा(ज-अ)
विक-मदिष-हस्ति-कुल- -लम्
आमिगृ २, ५, ९ : १४; जैगृ २,
६ : १२.
‡अश्व्य- पा ५, १, ४; -श्व्यः
शाश्रौ १८, ८, १५; -श्व्यानाम्
ऋप्रा १६, २८१; -श्व्येन अप्रा
३, २, २११.
२अश्व^७- पाग ४, १, ११०; १२३; २,
८०^१.
२आश्व^८- -श्वम् द्राश्रौ ८, ४,

१३; लाश्रौ ४, ८, १२.

आश्व-रथन्तर- -रयोः लाश्रौ
७, १, १२.

आश्वायन- पा ४, १, ११०.

आश्वेय- पा ४, १, १२३.

२अश्व्य^९- -श्व्यः शाश्रौ १६, ११,
२३१; ऋअ २, ८, ४६१; साअ
१, १९३; २०६; २६५; -श्व्याय
वृदे ६, ७९.

१अश्व-क- १अश्व- द्र.

२अश्वक^{१०}- (> आश्वकायन- पा.)
पाग ४, १, ९९.

१अश्वत्थ^{११}- पाग ४, २, ५; ८०^३; ९०;
३, १६४; ४, १०; ५, २, २४; ६, २,
८५; -०त्थ अरां ५, ९; -त्थः
आश्रौ २, १, १७१; आपश्रौ
५, १, २१; बौश्रौ; -त्थम् आपश्रौ
५, २, ४१; माश्रौ ५, ५, १४;
बौश्रौ; -त्थस्य आपश्रौ ५, १, २;
५, १०; बौश्रौ २, ६ : २२; १२ :
५; २४, १४ : ५; माश्रौ; -त्थात्
आश्रौ २, १, १६; †आपश्रौ ५, १,
४; ६, १; ८, ५; बौश्रौ; -त्थानाम्
बौश्रौ १५, १ : १२; वाधूश्रौ
३, ७६ : ५; -त्थे काश्रौ २१,
४, ४१; आपश्रौ; शुप्रा ४, १००.
आश्वत्थ^{१२}- पा ४, ३, १६४;
पाग ४, १, ४१; -त्थः आपश्रौ
९, १२, ६; बौश्रौ २३, ७ : २०;
हिगृ १, २६, १९; -त्थम् आपश्रौ
५, १३, ३; बौश्रौ; -त्थाः बौश्रौ
१३, २२ : १३; -त्थान् आपश्रौ
१९, २०, १५; २०, १०, ४;
बौश्रौ १३, २२ : ६; ७; माश्रौ
५, १, ८, ५; हिश्रौ २२, ३, २९;

a) वैप १, परि. च द्र.। b) वैप. १ परि. †अनाश्वरु^{१३} टि. द्र.। c) नाप.। उस.। d) अश्व- इत्यस्य दीर्घान्तेव विधौ परामृष्टं द्र. इति भावः। e) =देश-विशेष-?। f) विप. (रथ-, सखि-)। g) विप.। वस.। h) =ऋषि-विशेष-। व्यु. ?। i) अर्थः व्यु च ?। j) =साम-विशेष-। k) विप., नाप. (नक्षत्र-विशेष-मुहूर्त-विशेष-प्रमृ.)। व्यु. ?। वैप १, परि. च द्र.।

-स्थानि कौसू १६, १६; -स्थे काश्रौ ९, २, १३; आपश्रौ १२, १, १३; १८, १३, २१; २०, ७, ७; काठश्रौ; वाधूश्रौ ३, ६९: ८^a; -स्थेन काश्रौ १९, २, १८; ४, २५; आपश्रौ १८, १६, ४; वौश्रौ १२, ९: १२; १८, १०: ६; १४; वाश्रौ ३, ३, २, ४८; हिश्रौ १३, ५, ३३; -स्थेषु पागृ २, १५, ४; -स्थैः आपश्रौ १८, ५, १६; वैश्रौ १७, १५: ४; हिश्रौ १३, २, १०.

आश्वत्थी- पा ४, १, ४१; -स्थी काश्रौ १, ३, ३६; १५, ३, २७; आपश्रौ १, १५, १०; २३, १२, १४^b; काठश्रौ; -स्थीः काश्रौ ४, ८, ३; भाश्रौ ५, १०, ८; माश्रौ १, ५, ३, १७; वाश्रौ १, ४, ३, ३; २, १, २, ३१; वैश्रौ १, १४: १; हिश्रौ ३, ४, ४५; मागृ ३, १: २२; कौसू ४९, २; अशां २१, ३^c; -स्थीभ्याम् वौश्रौ १८, ९: १६; -स्थीम् आपश्रौ १६, १०, ३; वौश्रौ २, ६: २८; १०, १४: ४; माश्रौ ६, १, ३, २८; २, ५, १२; वाश्रौ १, २, ४, २; २, १, २, २७; वैश्रौ ४, १: १०; १८, ७: २०; हिश्रौ १, ४, ३१; ११, ३, २०; -स्थेषु लाश्रौ ४, ९, १४; -स्थ्यः आपश्रौ ५, १७, २; -स्थ्याम् कौसू १५, १; -स्थ्यौ वौश्रौ १८, ८: ६.

आश्वत्थ-पैलव- -वौ गौध १, २५.
आश्वत्थिक- पा ४, २, २२; ८०^o.
अश्वत्थक- पा ४, ३, ४८.
अश्वत्थ-कुण- पा ५, २, २४.
अश्वत्थ-च्छाया- -यायाम् आमिगृ २, ५, ६: १.
अश्वत्थ-पत्र- -त्राणि विध ११, ३.
अश्वत्थपत्रो(त्र-उ)पनद्ध- -द्वान् काश्रौ १४, ५, १२.
अश्वत्थ-पर्ण- -गेषु वाश्रौ ३, १, १, ३४; बौगृ २, १, १६; १८.
†अश्वत्थ-पलाश^d- -शाम् आश्रौ ८, ३, २१; शाश्रौ १२, २३, ३; वैताश्रौ ३२, २५.
अश्वत्थ-पलाश-खदिर-रोहितको(क-उ)दुम्बर- -राणाम् मागृ २, ६, ४.
अश्वत्थ-प्रमुख- -खान् शंघ ११६: १४.
अश्वत्थ-सुश्र-न्यप्रोधो(ध-उ)दुम्बर^d- -रम् कागृ ७२, १.
अश्वत्थ-सुश्र-बिल्व- -त्वानाम् अप ५, २, २.
अश्वत्थ-बधक- -कयोः कौसू १६, ११.
अश्वत्थ-बधक-ताजस्रङ्गा(ङ्ग-आ)हर-खदिर-शर- -राणाम् कौसू १६, १४.
अश्वत्थ-ल- -लः निसू ९, ९: ३६.
अश्वत्थ-शमीगर्भा(र्भ-अ)रणि^e- -णी काश्रौ ४, ७, २०.
अश्वत्थ-शाखा- -खायाः वाश्रौ ३, ३, १, ४२; -खायै आपश्रौ

१८, ११, २; हिश्रौ १३, ४, १५.
अश्वत्थ-सेवन- -नम् अप ६८, २, ६०.
अश्वत्थ-सेवा- -वा अप ६८, २, ६१.
अश्वत्थिक-, °स्थिल- पा ४, २, ८०^o; ४, १०.
अश्वत्थीय- पा ४, २, ९०.
अश्वत्थो(त्थ-उ)दुम्बर-सुश्र-न्य-प्रोध^d- -धे अप ६४, ८, ३.
२अश्वत्थ^f->आश्वत्थि(->स्थीय-पा.) पाग ४, २, १३८.
अश्वत्थामन्^g- पावा ४, ३, ६०.
अश्वत्थाम^g- पावा ४, १, ८५.
अश्वत्थ^h- -आः लाश्रौ १०, १५, १७.
अश्वत्ⁱ- पाग ४, १, ९९.
आश्वलायन- पा ४, १, ९९;
-नः वृदे ४, १३९; साअ १, ३४१; -नम् आगृ ३, ४, ४; शांगृ ४, १०, ३; ६, १, १; अप ४३, ४, ३४; बौध २, ५, २७^f;
-नाः वौश्रौप्र ४५: २; चव्यू १: ८.
अश्ववत्->आश्ववत्- -ताः वौश्रौप्र ३६: १.
अश्वस्तनिक^l- -कः वैध ३, १, १२.
अश्ववतान^m- (>आश्ववतान-पा.) पाग २, ४, ६७^j; ४, १, १०४.
१अश्विन- १अश्व-द्र.
२अश्विन^k- -श्विना आश्रौ ३, ९, ३^l; ४, १०, ४××; शाश्रौ १५, १५, ९^l; आपश्रौ १४, ३०, ५^m;

a) =आषाढ-मास-। b) °स्थि इति पाठः? यनि. शोधः (तु. सप्र. तै ७, २, १, ३ मूको. C. L ZDMG ५७, ७४३।)। c) =देश-विशेष-?। d) समाहारे द्रस.। e) कस.>षस.। f) =ऋषि-विशेष-। व्यु. ?। g) व्यप.। व्यु. ?। h) तस. उप. =खात-। i) विप. (गृहस्थाश्रमिन-).। तस. उप. श्वस्->श्वस्तन-(नाप.)> मत्वर्थायः ठन् प्र.। j) पाका. अश्व-, अश्वतान- इति। k) वैप १, परि. च द्र.। l) पाभे. वैप १ परि. अश्विना काठ १७, १९ टि. द्र.। m) वैप १, परि. अश्विना काठ ३५, ५ टि. द्र.।

या ३, १५; १२, ५; १०; -०श्विना
आश्रौ ३, ९, ३××; शांश्रौ; माश्रौ
५, २, ६, १९^१; या ४, १७; ५,
२१; ६, ६; २६; ३६; १२, २;
-श्विनोः ऋश्रौ १, १३, १;
४, ७, ४^२; शांश्रौ; ऋनिघ १,
१५; या ६, ३६; १२, ४६; १३,
४; -श्विनौ आश्रौ ६, ५, २××;
शांश्रौ; काश्रौ १९, ६, २२^१;
माश्रौ ५, २, ४, ४०^१; आपमं
१, १२, २^१; मागृ २, १८, २^१;
हिगृ १, २५, १^१; निघ ५, ६^१; या
५, २१^२; ६, १३; २६; १२, १^१;
४^१; ५^१; १०^१; १३, ५;
-१^०श्विनौ आश्रौ ४, १५, २^२;
७, १०, ५; शांश्रौ; -श्विभ्याम्
शांश्रौ ६, ३, ८^१; काश्रौ; या ११,
४५.

अश्विनी^० - ०नि अशां ५,
७; -नी वागृ १३, २^१; वैगृ २,
५ : १; या १२, ४६^१;
-नीभ्याम् शांश्रौ १, २६, २७;
-न्याम् अप १, ४, ७; १०, ९;
४१, ७^१; ४५, ७; अशां ११, ७;
-न्योः अप १, ३०, २; -न्यौ
अप ५७, २, १.

अश्विनि-संज्ञक^२ - कम्
अशां ५, ७.

अश्विनी-गत- -ते विघ
९०, १५.

अश्विन्या(नी-आ)घ-
-घे कप्र ३, ६, १०.

१आश्विन^१ - नः आश्रौ ४, १५,

१; ६, ९, ३; शांश्रौ; -नम् आश्रौ
५, ६, ११××; शांश्रौ; या १, ९^१;
१२, ४०; -नस्य आश्रौ ५, ५,
१२; शांश्रौ; -नाः शुप्रा ८, ४१;
याशि २, १; -नात् आश्रौ ७, ५,
६; ९, ११, १३; शांश्रौ; -नानि
बौश्रौ १८, १५ : २२; २६, ३१ :
१९; वृदे; -नाय आश्रौ ६, ५,
१; ६, ८; शांश्रौ ९, १९, ४;
वैताश्रौ २६, १४; -ने आश्रौ ५,
५, २०××; शांश्रौ, -नेन आश्रौ
६, ५, २३; काश्रौ.

१आश्विनी- १नी आश्रौ
९, २, २४; शांश्रौ १३, १०, ३;
१४, ४०, २२, आपश्रौ २२, ९,
२; काश्रौमं २८ : २४; हिश्रौ
१७, ४, ३४; ऋअ २, १, १५;
वृदे ५, ४०; ११७; ६, ४९;
७१; ७, १०६; शुअ ३, २२१;
४, ९३; साअ १, १७८; २१९;
२८७; ४१८; -नीनाम् शांश्रौ
९, २०, १४; -नीभिः शांश्रौ
१३, १०, २; -नीभ्याम् बौश्रौ
१४, २६ : १३; -नीम् शुअ
१, ४४७; ३, २४८; ४, ३१;
-नीपु अप्राय ६, ७; -न्यः ऋअ
२, १, २२; १३९; १०, २४; शुअ
२, १८१; साअ १, ३०३; ३०४;
-न्या आपश्रौ १४, ३३, ५; ८^१;
१५, १८, ९; वैश्रौ २१, १७ :
१२; हिश्रौ १५, ८, ३९; ४१^१;
-न्याः अप्राय ६, १^१; -न्यौ
ऋअ २, ८, १०१; १०, १३१;

वृदे ८, ४६; अअ २०, १२५.

आश्विन-कपाल^१ - ले बौपि
३, ३, १२.

आश्विन-पात्र^१ - त्रम् आपश्रौ
१९, ४, ९; बौश्रौ ७, २ : ११; ६ :
४५; ८ : १८; १४ : ४०; वैश्रौ
१५, २ : ६; हिश्रौ १३, ८, ४२;
-त्रे बौश्रौ ७, १५ : ४.

आश्विन-वत् काश्रौ १९, ३,
१४.

आश्विन-संपात^१ - तैः
आपश्रौ १९, ९, १३; हिश्रौ २३,
१, ५०.

आश्विन-सारस्वत^१ - तौ
बौश्रौ १७, ३५ : १०.

आश्विन-सारस्वतै(त-ऐ)न्द्र^१ -
-न्द्राः आश्रौ ३, ९, २.

आश्विनसारस्वतैन्द्र-
पशु^१ - शूनाम् वैताश्रौ ३०, १५.

आश्विना(न-अ)भाव- -वः
काश्रौ १५, १०, २२.

आश्विनै(न-ऐ)न्द्र-वैश्वदेव-
सारस्वत^१ - ताः ऋअ २, १, ३.

आश्विनो(न-उ)प्रस्य^१ - स्यौ
ऋअ २, १, ३०.

अश्विनोर्-वत^१ - ते द्राश्रौ २, २,
३८; लाश्रौ १, ६, ३४.

अश्वि-पीत- -तस्य माश्रौ २, ५, ३,
२६.

अश्वि-मत्- -मान् पा ४, ४, १२६.

२आश्वि(न>)नी^१ - पा ४, ४,
१२६; -नीः काश्रौ १७, ८, १;
१५; आपश्रौ १७, १, २; ३; बौश्रौ

a) तु. वैप १ परि. अश्विना वै २, ६१, १ टि. द्र. । b) पाभे. वैप १, ८२६ ङ; परि. अश्विना काठ १६,
२१ च द्र. । c) पाभे. पृ ४३५ १ द्र. । d) पाभे. वैप १ परि. अश्विना शौ ५, २५, ३ टि. द्र. । e) =नक्षत्र-
विशेष- । f) =देवीविशेष- । g) बस. पूष. ह्रस्वः (पा ६, ३, ६३) । h) विप., नाप. (अश्वि-देवताक-) कतु, प्रह- प्रसृ.) ।
साऽस्यदेवतायर्थे अण् प्र. । i) सपा. ंन्या<>न्याः इति पाभे. । j) कस. । k) द्रस. । l) =साम-
विशेष- । m) =इष्टका-विशेष- । अणि प्र. मतुपः लुक् ।

१०,३८ : ६; माश्रौ ६,२,१,३;
वाश्रौ २,२,१,२; वैश्रौ १९,२ :
३; हिश्रौ १२, १, २†; ३;
-नीभिः माश्रौ ६, २, १, २;
-न्यः वैश्रौ १९,२ : ५.

आश्विनी-वत् काश्रौ १७,
११-१२,१.

अश्वि-सरस्वती(ती-इ)न्द्र^a - न्द्राः
शुभ्र २,३९९.

अश्विसरस्वतीन्द्र-देवता->

प्य,त्या- -त्यम् शुभ्र २, ३७७;
-त्याः शुभ्र २, ४०३; ४३९;
४४०; ४५९; ४६३; -त्ये शुभ्र
१,६४३^२.

अश्विसरस्वतीन्द्र-दैवत्य-
-त्यम् शुभ्र २, ४४९.

अश्व्यु(धि-उ)षस^a - षसाम् ऋभ्र
२,१,४४.

†अश्विपद^b - दम् हिश्रौ १७, २, १७.

अ-श्वेत - तानाम् अप ७०, ५, ५.

१-२अश्व्य- १-२ अश्व- द्र.

✓अपू,सू.भ्वा. आत्म. गतिदीप्त्यादानेषु

अ-षड्-अश्व^c - > ऋणीण- पा ५,
४,७.

अ-षण्ड - ण्डः हिश्रौ ४,३,१.

अ-षण्ड्य (ष्टी-अ)तृतीया-स्थ^d-
-स्थस्य पा ६,३,९९.

अ-षण्ड्य(ष्टी-अ)न्त-वचन- नम्
पावा १,२,४४.

अ-षाडहिकी- -कीः निम् ५,१ : ६.

†१अषाढ,ढा(ळ्ह,ळ्हा)^e - पाउभौ २,
२, १२१; पा, पावा ४, ३, ३४^f;
-ढः बौश्रौ ३, १३ : ११; तैप्र

११,१६; -डम् आश्रौ ३, ७, ७;
शाश्रौ ५, ११, ७; ६, १०, ३;
आपश्रौ २२, २५, १२; बौश्रौ
१८, ५ : १०; हिश्रौ २३, ४, ७;
वैश्र २, १० : १; शुभ्र ४, १३;

-ढा काश्रौ १७, ४, २५; आपश्रौ
१६, २४, १२; बौश्रौ १०, ३२ :
१०; माश्रौ ६, १, ७, २१; वाश्रौ
२, १, ६, ३५; वैश्रौ १८, १७ :
४०; हिश्रौ ११, ७, ४०; अप १,
११, ४; शुभ्र २, १५९; चाश्र
१६ : २४; -ढाः अप १, २,
१; ४०, ४†; अशां १०, ४†;

-ढाभिः बौश्रौ २८, ४ : ११;
वाधूश्रौ २, १८ : १; अप १,
२९, २; -ढाभ्यः शांश्र १, २६,
१८; १९; वैश्र ३, २० : ८; ९;
-ढाम् काश्रौ १६, ३, २०; १७,
४, २५; २८; आपश्रौ १६, १,
२१^g, ५, ५; ९; १२; २४, १२;
बौश्रौ ९, १७ : ३५; १०, ३२ :
२; ९; २२, २ : १; माश्रौ ६, १,
२, १३; १६; ७, २१; वाश्रौ २,
१, १, ४०; ६, ३५; वैश्रौ १८,
१ : ७५; १७ : ४१; हिश्रौ ११,
१, ५९; ६२; ७, ४०; चाअ १६ :
२४^h; -ढाय या १०, ६; -ढासु

वाधूश्रौ ४, ४० : ६; कौसू ४१,
१०; अप १, ४, ५; ४४, ८; ९;
४९, ७; अशां १३, ३.

१अषाढ,ढाⁱ - ढः लाश्रौ १०,
५, १८; -ढा अप १, ४०, ३; -ढाः
अप ५७, ४, १; -ढाभ्यः अशां

१२, ३; -ढाम् वैश्रौ १८, १ : ७^g;
जंश्रौ १०; -ढासु अप १, १०, ६;
३३, २; -ढे बौश्रौ २६, १८ : १०;
अप ५५, ६, १; ७०^g, ६, २; -०ढे
अशां ४, ३; ४.

आषाढी- -ढी गौष १६,
३७; -ढ्याः शाश्रौ २, ५, ६; बौश्रौ
३, १ : ६; २४, १८ : ४; वैताश्रौ
३६, १३; शांश्र ६, २, १; -ढ्याम्
शाश्रौ ३, १४, १; काश्रौ ५, ३, १;
आपश्रौ ८, ५, १; काश्रौसं २८ :
१८; भाश्रौ ८, ७, ५; वैश्रौ ८,
९ : १; हिश्रौ ५, २, १; ३६; ३,
४४; वैताश्रौ ८, १७; कौश्र ३,
३, ७; बौश्र ३, १, २; माश्र २,
७, ९; गोश्र ३, ३, २२; बौष १,
५, १४३; विध ९०, १२; -ढ्यै
बौश्रौ ११, १ : १३; २२, १३ :
९.

आषाढ-वासन्तिक- -कयोः
आपश्र १, ११, २०; हिध १, ३,
७०.

आषाढ-शुद्ध^j - ढ्ये अप ५९,
१, २.

आषाढा-चर्मेटका-कुलायिनी-
महावीर- -रेण वैश्रौ २१,
१० : ६.

आषाढा(ढा-आ)य- -ये कप्र
३, ६, १०.

आषाढा-यु (क्त>)का-
-कायाम् विध ९०, १२.

आषाढो(ढ-उ)पाकर्मन्- -र्मै
वैश्र २, १२ : १.

a) द्वस. । b) अर्थः व्यु. च ? । c) तस. > बस. । d) विप. । तस. > द्वस. > उस. ।

e) वैप १, परि. च द्र. । f) पा. जाताद्यर्थस्य प्र. लुक्, पावा. च अन् प्र. इति । g) पाठः ?
आषाढीम् इति शोधः (तु. ८., मूको. वैश्रौ. च) । h) =उशनसो दुहितु- । i) =१अषा, मास-
विशेष- । स्वार्थे णः प्र. उसं. (पा ५, ४, ३८), सारिन् पौर्णमासीत्यर्थे अण् प्र. (पा ४, २, २१) च । j) षस. उष.
=शुक्रपक्ष- ।

भाषादीय- पावा ४, ३, ३४.
 अषाढा-वेला^०- लायाः काश्रौ १७,
 १२, ९; -लायाम् काश्रौ १७,
 ११, ९.
 २अषाढा^b-> २अषाढ- पा ५, १,
 ११०.
 अ-वा(ष-अ)न्त- न्ते पा ८, ४, १८.
 अ-षोडशिक, का^०- -कः माश्रौ २, ५,
 ३, १२; लाश्रौ ८, १२, ९; निसू ८,
 ४ : २४?^d; १२ : १०; -का निसू
 ८, ४ : २४; १२ : १०; -काः
 काश्रौ २३, १, १३; -के माश्रौ
 २, ५, १, १९; निसू ८, ८ : २२;
 -केषु लाश्रौ १०, १०, १४;
 -कौ काश्रौ २३, २, २; २४,
 २, ३; १५; ३९; ५, ३२; निसू
 १०, ५ : १५; २३.
 अ-षो(ष-उ)पदेशा(श-अ)र्थ-
 -यम् पावा ८, ३, ६४.
 †^१अष्ट^० लाश्रौ ९, १०, ९; १०.
 †^२अष्टक^१- -कः शाश्रौ १५, २६, १;
 ऋअ २, १०, १०४; वृदे ८, १६;
 अत्र २०, २५; ३३; -काः^२
 आपश्रौ २४, ९, ७; हिश्रौ २१,
 ३, १२; -कानाम्^३ आश्रौ १२,
 १४, ४.
 आष्टक- -०क आश्रौ १२, १४,
 ४; आपश्रौ २४, ९, ८; बौश्रौप्र
 ३२ : ३; हिश्रौ २१, ३, १२;
 वैध ४, १, ७.

अष्टक-वत् आपश्रौ २४, ९, ८; बौश्रौप्र
 ३२ : ४; हिश्रौ २१, ३, १२;
 वैध ४, १, ७.
 २अष्टक- १अष्टन्- द.
 १अष्टका-> ०का-धेनु^४- -नुम् आमिष्ट
 ३, १०, २ : १०; बौपि ३, ९, ५^१.
 २अष्टका-, अष्टक्य- १अष्टन्- द.
 १अष्टन्^१- पाउ १, १५७; -ष्ट, > ष्टा
 वैश्रौ १९, ५ : २१; आगृ; ऋप्रा
 १६, ५३^२; -ष्टनः अप्रा ३, १,
 ७; शौच ४, ९४; पा ६, १, १७२,
 ३, १२५; ७, २, ८४; पावा ६,
 १, १६८; ३, ४५^३; -ष्टभिः वाश्रौ
 २, १, १, २३; निसू; -ष्टसु वाश्रौ
 १, ४, १, २३, हिश्रौ; -ष्टानाम्
 आश्रौ ४, १३, ७; अप्र; पा ७, ३,
 ७४; -ष्टभिः काश्रौ १७, ७, २;
 आपश्रौ; -ष्टभ्यः आपश्रौ १,
 २३, ५; बौश्रौ २४, ३२ : २०;
 वैगृ २, २ : १३; पा ३, २, १४१;
 ७, १, २१; -ष्टसु शाश्रौ १४, ६१,
 ३; काश्रौ; -ष्टासु-ष्टासु शाश्रौ
 १४, २, २; बौश्रौ १५, १८ : ५;
 १८, ३४ : १०; -ष्टौ आश्रौ २,
 ११, ५××; शाश्रौ १४, ८०, २^४;
 आपश्रौ; कौगृ ३, १५ ४^१; मागृ
 १, २, ३^१; निघ १, ६; ३, ११;
 १८; या २, १५; २७; ३, १००^५;
 १३; १९; ७, ४; ९, ३५; १४,
 ५; पा ७, १, २१; -ष्ट-ष्टौ

वाश्रौ २, २, ४, २३; माश्रौ ६, २,
 ६, २; -ष्टौ-ष्टौ आश्रौ ९, ४, ५;
 आपश्रौ.
 २अष्टक, का^३- पावा ७, ३, ४५; पाग
 ५, १, २; २, ११६; पाउ ३,
 १४८; -कः अप्र ४७, १, ९;
 ऋअ १, ६, ३××; शुअ; -कम्
 वैगृ ७, ८ : ११; वृदे; -कया
 कागृ ६६, १××; -का आगृ २,
 ४, १०; कौगृ; -काः बौश्रौ १६,
 १२; ७; आगृ; काश्रु २, ५; ऋअ १,
 ५, ७; वेज्यो १५; -कानाम्
 ऋअ ३, ४२; -कानि अप्र २ :
 ३३; -काम् आमिष्ट ३, २, १ :
 १; १२, १ : ६; मागृ २, १५ : १;
 वैगृ ४, ३ : १; ७ : ९; ५, १५ :
 २१; ६, १९ : १५; हिगृ २, १४,
 १; द्रागृ ३, २, २८; कौस् १३८,
 १४; अत्र ३, १०; -कायाः
 द्रागृ ३, ४, २९; -कायाम् पागृ
 २, १२, १; कौस् १३८, १; १६^६;
 -कैकायै पागृ ३, ३, ७; मागृ २,
 ८, ५; गोगृ ३, १०, १४; १९; ३३;
 ४, ४, १८; २३; जैगृ २, ३ : ३;
 ४; ७; द्रागृ ३, ३, ३२; ४, ४;
 १३; -कासु कौगृ ३, ७, १३; ९, ८;
 १५, १; शांगृ ४, ५, १७; ७, ७;
 आमिष्ट ३, ३, २ : १२; २९; कप्र
 १, ५, ४; २, ८, २४; वाध १३,
 २२; विध ७४, १; वैध २, ११, ९;

a) =इष्टका-प्रान्त-। षस. । b) =पलाश-वृक्ष-। व्यु. ? अषाढ- इति मल्लिनाथः (कुमारसंभवम् ५, ३०) ।
 c) विप. । बस. । उप. षोडशिन (=प्रह-) द्र. । d) णशिका इति पाठः ? यनि. शोधः (तु. अत्रैव मूको.; सप्र. निसू
 ८, १२ : १० च) । e) पाठः ? । सपा. मा २३, ४९; का २५, ९, ५ एष्ट-> -ष्टः (<आ/यज्) इति,
 आश्रौ १०, ९, २ ? अस्थः इति, शाश्रौ १६, ६, १ इष्टः इति, वैताश्रौ ३७, १ जिष्णुः इति च पाठे. । f)
 =ऋषि-विशेष-। व्यु. ? । g) बहु. <आष्टक- । h) =गोधूम-पिष्टमय-गो-। व्यु. ? । i) अष्टधे^० इति R. ।
 j) वैप १, परि. च द्र. । k) ष्टवौ इति पाठः ? यनि. शोधः । l) सप्र. अष्टौ, आहुतीः <> अष्टाहुतिः इति
 पाठे. । m) नाप. ([मार्गशीर्षपौर्णमास्या उत्तरं त्रिषु मासेषु भाषिनी-] कृष्णपक्षाष्टमी-तिथि-, [तत्रानुष्ठीयमान-] श्राद्ध-
 कर्मन्-, संख्या-विशेष-, तिथि-देवता-) । वैप १ द्र. । वैतु. पाउ. < ✓ अश् [व्याप्तौ] ।

-के शांत् ५, १०, ६^१; अअ ५, १०; अं २ : २१; २५; ४३; -०के कौग् ३, १५, ६^२; -केषु माग् २, ८, ४^३?^०; -कौ ऋअ १, ७, ८; १०, ३; शुअ ५, ७३; ऋप्रा १६, २५; ७६.

आष्टक्य^१ - क्यम् अअ ३, १०.

अष्टक-पल^० - लानि या १४, ७^१.

अष्टक-शेषविस्तारायत्^१ - तम् वैश्रौ ११, ८ : १५.

अष्टका(का-अ)दि- द्यः कप्र ३, ७, १४; -दीनि कप्र ३, ७, १५.

अष्टका(क-अ)धिक- -कम् अय ३६, १०, २.

अष्टका(का-आ)नुकृति- -तिः वौग् ३, १२, १.

?अष्टका(क-अ)नुवाक-मन्त्र^१ - न्त्राः चाअ ३९ : १०.

अष्टकः(का-अ)पूप^१ - -पम् भाग् २, १५ : ४.

अष्टका(का-अ)मावास्या- -स्यासु गोग् ३, ३, २०.

अष्टका-यज्ञ^१ - -ज्ञाः काग् ६१, २.

अष्टका-वत् वैग् ४, ७ : २; ६, २०, : १; विध ७४, १.

अष्टका-आद् - -द्धम् आमिग् ३,

३, १ : ११; -द्दे आमिग् ३, ३, २ : १२; वौग् २, ११, १८.

अष्टका-हीन- -ने वैग् ६, १९ : १३; ७, ८ : ११.

अष्टका-होम^१ - -मः बौश्रौ २४, ४ : ३; वौग् १, १, १; १२; २, ११, १; ६७; ६९; ४, ९, २; -मम् वौग् २, ११, ३३; वैग् ६, १९ : ११; -मान् कौसू १३८, १; -मे बौध २, ८, २०.

अष्टकाहोम-कल्प- -ल्पेन माग् २, ९, ६.

अष्टकिक- , अष्टकिन्- पा ५, २, ११६.

अष्टक्य,क्या- पा ५, १, २; -क्यम् आमिग् ३, २, ४ : ११;

१३; १६; ७ : १५; १७; -क्याम् आमिग् ३, २, ६ : १५; १८; २१;

-क्यायाः कौसू १९, २८; -क्ये^१ हिध १, ३, ३१^३.

अष्टक्य^१ - -क्ये आपध १, १०, २^३.

अष्ट-कर^० - -रम् अप २५, २, ५^२.

?अष्ट-कर्ण^१ - पा ६, ३, ११५.

अष्ट-कृत्वस् (:) काश्रौ ९, ४, १५; आपश्रौ २, ७, ९; काठश्रौ १२२; अय ४१, २, ७; ८.

अष्ट-कोणक- -कम् अय २५, १, ११.

१ अष्ट-गुण^१ - -णैः शंघ ११.

२ अष्ट-गुण,णा^१ - -णः आज्यो ७, २१; -णम् वाध २, ४७; -णा विध ६, १४.

अष्ट-गृहीत^१ - -तम् काश्रौ ८, २, २५; १६, २, ७; आपश्रौ १६, १, ४; काठश्रौ; -तस्य वैताश्रौ २८, ७; -तेन आपश्रौ १३, १४, ५; माश्रौ २, ५, २, ९; ६, १, १, ५; वाश्रौ २, १, १, ३^१; वैश्रौ.

†अष्ट-गो-युक्त^१ - ऋत ५, २, ३.

अष्ट,ष्टा|चत्वारिंशत्^१ - पा ६, ३, ४९; -शत् वाधुश्रौ ४, ४६ : ६;

पाग्; -शतः बौश्रौ १८, ४५ : ४५; माश्रौ ६, २, ५, २६; वाश्रौ २, २, ४, ५; पावा ५, १, ९४;

-शतम् काश्रौ २१, १, ८; आपश्रौ २१, १, १४^१; बौश्रौ;

हिश्रौ १६, १, ८; ११^१; -शत्सु बौश्रौ १८, ४५ : ४५.

अष्टाचत्वारिंश^१ - -शः बौश्रौ १०, ४२ : १६^१; वाधुश्रौ ४, ४६ : ३; हिश्रौ १६, ४, ३; निसू ४, ११ : २८; -शम् आपश्रौ २१, ८, ११; २३, ९, ८; १४;

बौश्रौ १६, ६ : ३; १८, १५ : ७; २३ : १४^१; २६, २१ : १२^१;

हिश्रौ १८, ३, १३; १६^१; निसू

a) पाठः ऋटित इव (तु. सप्र. पाग् ३, ३, १३)। b) पाभे. पृ २७० h द्र.। c) पाठः ? अष्टकाऽसि

इति द्वि-पदः शोषः (तु. सप्र. काठ ३५, १२)। d) विप. साऽस्यदेवतीयः व्यण् प्र. उर्सं. (पा ४, २, ३०)।

e) कस. उप. = परिमाण-विशेष-। f) *कपाला* इति पाठः ? यनि. शोषः (तु. निर २, ३)। g) विप. (उल्लूखल-बिल-)। कस.। h) पाठः ? इष्ट इति शोषः। i) मलो. कस.। j) चस. वा मलो. कस. वा। k) सस.।

l) = अष्टका-। स्वार्थे यः प्र. उर्सं. (पावा ५, ४, २५)। m) सप्र. अष्टक्ये < > अष्टक्ये इति पाभे.। n) = अष्टक्य-।

दीर्घछान्दसः। o) द्विस. प्रमाणे मात्राचो लुक् (पावा ५, २, ३७)। p) वैप १ द्र.। q) कस. उप. = वैशिष्ट्य-।

r) विप. बस.। उप. = आश्रुति-। s) कस. पूप. = अष्टधा-। t) अस्तगृ इति पाठः ? यनि. शोषः (तु. सप्र.

आपश्रौ १६, १, ४ प्रभृ.)। u) समाहारे द्विस. > तुस.। पूप. समासान्तस्य टचः प्र. अभावः उर्सं. (पा ५, ४, ९२)।

v) वैप १, परि. च द्र.। w) पाठः ? शत् इति ०. शोषः (तु. सप्र. काठ ३४, ९ तां १०, ३, ३ च)। x) नाप.

(स्तोम-)। y) अष्टाचत्वारिंशम् इति पाठः ? यनि. शोषः (तु. बौश्रौ १६, ६ : ३)।

४, ११ : ६; -शस्य लाश्रौ ६, २, २५; -शाः बौश्रौ १६, ३४ : १६; ३६ : २१; -शात् निसू ६, १२ : ७; -शानि द्राश्रौ ८, १, १३; लाश्रौ ४, ५, १३; -शे आश्रौ ७, ५, ११; १२, ७, १२; -शेन क्षुस् १, ७ : १४; -शौ बौश्रौ १८, २३ : १३.

अष्टाचत्वारिंश-स्तोम- -मम् शाश्रौ १०, ११, १.

अष्टाचत्वारिंशक- पावा ५, १, ९४; -कम् पाय २, ६, २.

अष्टाचत्वारिंशत्-परिमाण- -गेन आपध १, ३०, २^०; हिध १, ८, २.

अष्टाचत्वारिंशत्-संमित- -तम् बौगृ ३, ३, १; १४^१; काय ४, १; हिध २, ५, ५७.

†अष्टाचत्वारिंशद्-अक्ष (र >) रा^०- -रा वाधुश्रौ ४, १००^२ : ११; निसू १, ४ : ४.

अष्टाचत्वारिंशद्-रात्र^०- -त्रात् आश्रौ ११, ४, ८.

अष्टाचत्वारिंशन्- पावा ५, १, ९४.

अष्ट-त्रिंशन्-> ०^१त्रिंश^०- -शः अपं ४ : १४.

अष्टत्रिंशद्-रात्र^०- -त्रेण हिश्रौ १८, २, १५.

अष्ट-दन्त- ऋत ५, २, ३.

‡अष्टदिवाकरपूर्णदिवा आज्यो ५, १८.

अष्ट-द्वि-गुण- -गैः काशु ७, ३७.

अष्ट-धा शाश्रौ १३, १२, १३^१;

आपय.

अष्टधा-कृत- -तम् विध १८, ८.

अष्टन्-जनादि-पथि-मथ्या(थिन्-आ)

त्वं- -त्वेषु पावा ७, २, ८४.

अष्ट-पञ्चाशत्^०- -शत् बौशु ११:३.

अष्ट-पत्र^१- -त्रम् आमिगृ २, ४, ११ : ७.

१अष्ट-पद्^०-> ०^०द-प्रक्रम^०- -मे वैश्रौ १, २ : ७.

२अष्ट-पद्^१- ऋत ५, २, ३.

अष्ट-प(द् >)दा- -दा अअ १३,

३; १७, १; -दाः अअ १०, ९;

१३, ३^१; -दासु ऋप्रा १८, ५२.

अष्टपद-ता- -तायाः निसू १, ४ : ७.

अष्ट-भाग^०- -गेन आपशु १६, ५; हिशु ५, २६.

अष्टभागा(ग-अ)वे(त >)ता^१-

-ताः आपशु १७, ४; हिशु ५, ४४.

अष्ट-म- पा ५, ३, ५०; ५१; -मः

शाश्रौ १६, २७, ६; २९, १७;

बौश्रौ; -मम् शाश्रौ १०, १०,

१; १६, ११, २२; आपश्रौ;

-मस्य बौश्रौ १७, २५ : ९; २६ :

८; क्षुस्; -मात् निसू ४, १३ :

३०; ७, ९ : ३०; आमिगृ २, ७,

९ : ४०; -मानि बौश्रौ १५,

१६ : १; वाधुश्रौ ३, ७६ : १४^३;

-मे आश्रौ १०, ७, ८; शाश्रौ;

या १४, ६; -मेन बौश्रौ २९, २ :

७; आपशु १९, ३; हिशु ६, १८;

-मैः बौश्रौ १५, १९ : ११;

वाधुश्रौ ३, ८३ : ४; लाश्रौ ७,

७, ११; १७; आपशु १९, ३; हिशु ६, १८.

अष्टमी^०- -मी निसू ३,

९ : १०; आपमं; -मीम् शाश्रौ

१७, १२, ४; आपश्रौ १०, १५, १;

आय ३, १२, १०; कौगृ २, ७, ६;

शागृ २, ११, ७; हिगृ २, १४, २;

वाध २०, २६; बौध ३, ८, ९;

आज्यो ४, १; -मीषु आय २,

४, १; कौगृ ३, १५, १; कागृ ६, १,

२; आपध २, ३, ८; हिध २, १,

३९; -म्यः आपश्रौ १५, २०,

२०; भाश्रौ ११, २२, १; भागृ १,

१९ : १; मागृ २, ८, २; आपशु

१७, ७^२; बौशु ११ : ९; हिशु.

५, ४८; -म्या आपश्रौ ६, १६,

६; बौश्रौ १०, २९ : ८; वृदे ४,

१०९; अअ ५, २४; गोगृ ४, १,

१७; द्रागृ ३, ४, २५; -म्याः

भागृ ३, २१ : ३; शोध ४५;

ऋअ २, ४, १०; -म्याम् शाश्रौ

१०, १, १; १५, १२, ६; काश्रौ

१६, २, १; २०, १, २; आपश्रौ

२३, २, ३; बौश्रौ ८, २ : २०;

९, १९ : ४५; १४, ६ : ५; १६,

१३ : ८; २१, २१ : ६; २५,

१ : १३^१; वाश्रौ ३, २, ३, ३;

वैश्रौ १६, ३ : ४; हिश्रौ १८, १,

१९; लाश्रौ ९, ९, ८; १२, १०;

१०, १०, १०; वैताश्रौ २८, ६;

आमिगृ १, २, ३ : १८; २, ५,

८ : ३९; ७, ६ : ६; बौगृ २, ७,

२९; ११, २; ४^२; ३, ४, २४;

८, १; वैगृ ४, ३ : १; गोगृ ३,

a) ०^१परी^० इति पाठः ? यनि. शोधः । b) वैप १, परि. च द्र. । c) =यज्ञ-विशेष- ।

द्विस. समासान्तः अच् प्र. (पा ५, ४, ८७) । d) विप. । परिमाणे ऋः प्र. । e) द्वस. । f) विप. ।

बस. । g) समाहारे द्विस. । h) मलो. कस. । i) =अष्टापद- । बस. । j) विप. । तृस. । k) विप.,

आप. (तिथि-विशेष-) ।

१०,१६; ४,४,१७; कौसू १४०,
२; वाध १३, २२; शंघ ४८; विध
७८, ४३; अप १८^२, २, ४; ५०,
३, ४; ६३, ३, ९; वृदे २, १४८;
६, ३३; साअ २, ४७३; ४८५;
आज्यो १३, ६; -म्यो: वैध २,
११, ७.

अष्टमी-चतुर्दशी-पञ्च-
दशी- शीपु विध ६९, १.

अष्टमी-वर्जम् ऋअ
२, १०, ५३.

अष्टमी-पोडशी-
-इयौ ऋअ २, १, ३१; ७, १०४.

अष्टम्या (मि-आ) दि-
युज्- युज्: ऋप्र २, ८, १०३.

अष्टम्या(मी-आय>)
द्य- -द्ये ऋअ २, ९, १०७; १०,
६०.

आष्टम- पा ५, ३, ५०; ५१.

आष्टमिक^३- -कम् निसू ४,
३: ३६; ७, ४: २.

आष्टमिकी- -की: निसू
६, ८: ३७.

अष्टम-देश- -शम् द्राश्रौ ३, २,
१४; ३, २८; लाश्रौ १, १०, १०;
११, २१; गोय १, ६, १४; कौसू
८७, २६; -शे गोय ४, २, ३;
-शेषु द्राश्रौ ३, २, २; लाश्रौ १,
१०, १; कौसू ८६, ३.

अष्टम-नवम- -मयो: लाश्रौ ६,
९, १०; -मे शाश्रौ १६, १५,
१२; -मौ शाश्रौ ५, २०, ३.

अष्टम-भाग- -गौ बौशु ११:
८; १२: ६.

अष्टमभाग(ग-ऊ)न- -नम्
बौशु २: २३.

अष्टमा(म-आ)दि- -दय: आश्रौ
१२, २, ४; मैअ १८.

अष्ट-मास-> ष्वा (स-अ) धिका-
(क-अ)शीति-वर्ष^७- -र्षाणि वैगृ
३, २१: ६.

अष्टमासिक^८- -कम् वृदे २, ५६.

अष्ट-यो(नि>)नी^९- -नीम् बौश्रौ
१९, १०: ३६१.

†अष्ट-रात्र^९- -त्र: आश्रौ १०, ३, १६;
-त्रम्^९ वैगृ २, ३: ६; गोय ४, ९,
१; अप १, ३३, ९; वाध ११, ७७;

-त्रस्य आपश्रौ २२, १४, ९;
-त्राय बौश्रौ १६, ३१: ६; -त्रै
निसू ९, ८: ३१; -त्रेण शाश्रौ

१६, २७, १; ७; आपश्रौ २२,
२३, ७; हिश्रौ १७, ८, २५.

अष्टरात्र-न्याय- -येन निसू ९,
१: ३५.

अष्टरात्र-प्रभृति- -तय: निसू ९,
८: २८.

अष्ट-रात्रो(त्र-उ)पोषित^१- -त:
द्रागृ ४, ३, १०.

अष्ट(ष्ट-ऋ)र्च^९- -र्च: अत्र ८, २;
-र्चम् वैताश्रौ ३२, १०; ३३,
१७; काय: -र्चस्य अत्र २०, ६;

-र्चानि आश्रौ ७, १२, १; अपं
२: ८७; -र्चेन आपश्रौ १९, ९,
५; ८; बौश्रौ २९, ६; १६६; हिश्रौ;

-र्चेभ्य: अप ४६, १०, ५१; -र्चेषु
वैताश्रौ ३३, १८^१.

अष्टर्च-प्रथम- -मया गोय ४, १,
१३.

अष्टर्च-प्रभृति- -तीनाम् अं २:
८; -तीनि अय ४६, २, ५.

अष्ट-वर्ग^१- -र्गा: काश्रौ ९, ४, १७.

अष्ट-वर्ष^१- -र्षम् पाय २, २, १; वैगृ
६, ७: ३१; -र्षात्^१ वैगृ ६, १२:
२; ७, ५: ४.

अष्ट-विध, घा^१- -घ: अप ६८, ५,
१५; -घम् शाश्रौ १६, २७, १;

२; ७; -घा शैशि १९७; पाशि;
-घा: हिश्रौ २१, ३, १०; अप
६८, ५, १६.

अष्टविध-प्रभृति- -तीनाम्
आपशु ८, १०; हिशु ३, १४.

अष्ट-वृष^१- -ष: अत्र ५, १६१.

अष्ट-शत^१- -तम् छुसू ३, २: १४;
शांय: -तस्य अप ७२, ४, ७;

-तेन आमिगृ २, ५, ६: २९; वाध
२१, ६; ८; -तै: क वाध २१, ७.

अष्ट-शाल-> शालीय- ऋत ५,
२, ३.

अष्ट-सं(ख्या>)ख्य^१- -ख्यम् मीसु
४, १, ४६.

अष्ट-सप्त-षष्- -षड्भि: उनिसू १:
१२.

अष्ट-सहस्र^१- -सम् आमिगृ २, ५, १:
३२; ३: ३४; ४: ६; ६: १९; २०^२;

२५; वौगृ ३, ७, २२; अप ३५,
१, ७; ३६, ६, १; १६, ३; वाध
२७, १८; शंघ ३११; ३२१;

३२९; बौध ४, ५, ३१; काध
२७६: ४; ९; -स्रेण आमिगृ २,
५, ६: २९; ३२; अप ३६, १२, १.

अष्टसहस्र-तस (:) अप ३६, १३,
१.

a) तत्रभवीयष् ठञ् प्र. (पा ४, ३, ६७) । b) बस.>कस. । c) अष्ट मासान् भृत इत्यर्थे ङजि (पा ५, १, ८०) उत्तरपद-वृद्धि: उसं. (पा ७, ३, १५), यद्वा मत्वर्थाष् ठञ् प्र. । d) वैप १, परि. च द्र. । e) समाहारे द्विस. । f) विप. । समाहारे द्विस.>तस. । g) ष्ठा इति पाठ: ? यनि. शोध: । h) ष्चम् इति C. शोध-प्रस्तावो विमृश्य: । i) विप. । बस. । तद्धितार्थे द्विस. प्र. लुक् (पा ५, १, ८९) इत्यपि द्र. । j) वैप १ द्र. । k) कस. ।

अष्टसहस्रा(स-अ)भिजप्त-
-प्तम् अप ३६, १०, १; ११, १.
अष्ट-सुवर्ण^० - णौ या १४, ७^b.
अष्ट-स्त(न>)ना^० - नाम् काश्रौ
१६, ४, २[†].
अष्ट-स्थू(णा>)ण^d - णः कौस्
१३५, ९[†].
अष्ट-हस्त^० - स्तम् अप ३०^३, १,
३; ४.
†अष्टा-कपाल^० - पावा ६, ३, ४६^६;
-लः काश्रौ ५, १, ४; १२, ३; १५,
१, ७; आपश्रौ ३, १७, ६^५; ५, २८,
२; ९, ४, ४; १३, २५, ५; १९,
२७, १३; २०, ७, १३; २३, २;
२२, २, १२; १८, १८; २३, १४,
५; २४, २, ३०; ३२; वौश्रौ;
-लम् शाश्रौ १४, २, १७; १६, १,
११; आपश्रौ; -लस्य आपश्रौ
५, १९, १; भाश्रौ ५, १९, १६;
वैश्रौ ४, ९ : २; हिश्रौ १, ६,
१०; १५; ३, ५, १; ६, १७;
-लाः वौश्रौ २४, १० : १;
चाअ १०:१; -लान् वौश्रौ २६
१५:८; २६; २७, १४:२१; माश्रौ
५, १, २, १३; ७, ३५; वैश्रौ २०,
३१ : २; हिश्रौ ९, ३, ४१; -ले
वौश्रौ २०, १८ : ८; १३; -लेन
शाश्रौ १३, २९, २९; आपश्रौ २२,
११, २१; २३, १३, १३; वौश्रौ
२०, २५ : ४; २४, ३४ : ५; २६,
२ : ५; ६; माश्रौ ५, १, १, १९;
वाधूश्रौ ४, १९ : ३२; २२ : २;
वाश्रौ ३, २, ४, ५^२; वैश्रौ १,

१६ : ९; हिश्रौ ३, ५, १६; १७,
५, १३; १८, ४, ५०; लाश्रौ १०,
१९, ४; -लौ माश्रौ १, ५, ६, ३;
वाश्रौ १, ४, ४, २५.
अष्टाकपाल-वत् वैश्रौ ४, ९ : ५.
†अष्टा(ष्ट-अ)क्षर, रा^० - रः शाश्रौ
७, २६, १०; निसू; -रम् शाश्रौ
९, ५, १२^३; लाश्रौ; -रा शाश्रौ
१४, २, ३; १६, २७, २; वाधूश्रौ;
-राः आश्रौ ८, १, १२; शाश्रौ;
-राणि लुस् १, ४ : २८; ५ :
१४; ११ : २३; २, ४ : १७;
-रान् आश्रौ ८, २, २३; -रा-
भ्याम् उनिस् २ : २८; ३४;
-राम् वाधूश्रौ ४, १००^२ : १;
-रे ऋप्रा ८, ३९; -रेण लाश्रौ
७, १०, १६; निम् २, १० : १५;
आमिष्ट ३, ११, ४ : १०; -रौ
निस् १, २ : ६; ३ : ५; ७; ९; ११;
४ : १४; ऋप्रा १६, २९; ५६;
५७; उनिस् १ : १५; ३१.
अष्टाक्षर-ता- -तायाः निस् १,
१ : १२; १७.
अष्टाक्षर-दशाक्षर- -रौ निस् १,
१ : २६; ऋप्रा १७, ३७.
अष्टाक्षर-पदो(द-उ)त्त(म>)
मा^० - मानाम् लाश्रौ ६, १०,
२७.
अष्टाक्षर-पा(द>)दा- -दा निस्
१, २ : १; ११; ३ : १; ४ : ९.
अष्टाक्षर-प्रभृति- -तीनि निस्
१, ६ : १६; ऋप्रा १६, १.
अष्टाक्षर-मन्त्र- -न्त्रेण वैध ३,

९, ५.
अष्टाक्षरै(र-ए)कादश-द्वादशन्-
-शानाम् उनिस् १ : ३५.
अष्टा-गव- पावा ६, ३, ४६.
अष्टा-गो-युक्त^० - ऋत ५, २, ३.
अष्टा(ष्ट-अ)ङ्ग^० - ऋम् अप ३६, ५,
२; वैध ३, १२, ७.
१अष्टा(ष्ट-अ)ङ्गुल^० - लम् वैश्रौ १,
१ : २४; काश्रु ५, ८; वौश्रु ४ :
२३; -लस्य वौश्रौ २६, १० :
५; २३ : ५; वौश्रु ४ : १८; २०.
अष्टाङ्गुलो (ल-उ)न्नत- -तम्
वैश्रौ १, २ : ४; १०.
२अष्टा(ष्ट-अ)ङ्गुल, ला^० - लः कप्र
१, ७, ५; अप २२, ६, ५; ७, १;
-लम् वैश्रौ ११, ७ : ३; कप्र १,
१०, २; अप ३०^२, १, ११; -ला
अप २६, ३, ५.
अष्टाङ्गुली- -लीम् कौस् ८६,
१४.
अष्टाङ्गुल-युक्ति-नाह^० - -हम्
वैश्रौ १, १ : २६.
अष्टा(ष्ट-अ)ङ्गुलि-> ०विस्ता(र>)
रा^० - नाम् वैश्रौ १, १ : १५^१.
विस्तारा (र-आ)य(त>)ता-
-ता वैश्रौ ११, ८ : ३.
†अष्टा-चक्र, का^० - -कम् अश्र ११,
४; शौच ३, २; -का अश्र १०, २.
अष्टा-त्रिंशत्- -शत् अश्र ९, ५.
अष्टात्रिंशद्-रात्र^० - -त्रः आश्रौ
११, ४, ८; -त्रम् काश्रौ २४, २,
३५; आपश्रौ २३, ६, ७.
अष्टादंष्ट्र^० - -ष्ट्रः ऋज २, १०,

a) द्विस. उप. = तोल-विशेष-। b) सुपणौ इति पाठः ? यनि. शोधः (तु. RNM.)। c) वैप १, परि. च द्र.। d) विप.। बस.। e) पृ ४३९० द्र.। f) विर.। कस. > बस.। g) = अष्टगोयुक्त-। h) समाहारे द्विस.। i) विप. (प्रमन्थ-)। बस. उप. नाप. (युक्तये [उत्तरारणेद् अधरारणया संयोगाय] नाह- [प्रबन्धन-स्थानीय-भाग-])। j) लवि इति संस्कृतुः शोधः। k) = यज्ञ-विशेष-। l) = ऋषि-विशेष-। पू. दीर्घः (पा ६, ३, १२५)।

१११; -ष्टम् आश्रौ १२, ११, १;
आपश्रौ २४, ८, ६^३; शौच ३, २.
आष्टादंष्ट्र^३ - -०ष्ट आश्रौ १२,
११, १०; आपश्रौ २४, ८, ६^३;
-ष्टम् लुस् १, ५ : ३; २, १५ :
२२; निस् ३, ३ : २८; ८, १ :
३१; -ष्टयोः लाश्रौ ८, १, ११;
-ष्टस्य लुस् २, १५ : १५;
-ष्टात् लुस् १, ५ : ५.

आष्टादंष्ट्र-सदोविशीया (य-
अ)र्केषुष्प- -प्पेषु लाश्रौ ७, ८,
१५.

आष्टादंष्ट्रा(ष्ट-अ)च्छावाक-
सामन्- -न्नः लुस् १, ५ : १;
६ : ६.

आष्टादंष्ट्रा(ष्ट-अ)न्त^३-
-न्तानि लाश्रौ १०, १०, ११.

अष्टादंष्ट्र-वत् आपश्रौ २४, ८, ६^३.

अष्टा-दन्त- ऋन् ५, २, ३.

अष्टा-दशन्- -श आश्रौ ४, १३,
७×४; काश्रौ; -शभिः निस् ५,
११ : ६; १२ : १५; -शभ्यः
लाश्रौ १०, ११, ७.

अष्टादश^३- -शः काश्रौ १७, १०,
१०^३; वौश्रौ १०, ४२ : ३^३;
२४, ११ : ९; वाश्रौ २, २, १,
१७^३; -शम् लाश्रौ ६, ७, १२;
अप ४१, ५, ७; आश्रौ ९, ९;
-शाः शाश्रौ १४, ४१, ३; -शात्
लाश्रौ ६, ८, १३; -शे कौश्र १,
२१, १७; शांश्र १, २८, २०;
साश्र २, २५३; ७९९; -शेभ्यः
अप २ : ८; -शौ आपश्रौ २२,
४, ४; हिश्रौ १७, २, ३; ४.

अष्टादशी- -शी ऋन् २, ३,
५३; ७, १०४; ९, ६६; वृदे ५,
१३५; -शीम् कौस् १३८, ७.

अष्टादश-र्क^३- -कः ऋन् ३, २४;
-कम् अश्र ५, १७.

अष्टादश-कपाल^३- -लम् भाश्रौ
१, १५, १४; ९, ११, १४.

अष्टादश-कर(ण>)णी^३- -ण्यौ
आपश्रु १९, १.

अष्टादश-गण- -णैः अशां २४,
३^३.

अष्टादश-दारु^३- -रु माश्रौ १,
१, ५२; -रुम् काठश्रौ २;
माश्रौ १, ५, ३; वाश्रौ १, २, १,
३०.

अष्टादश-दी(क्षा>)क्ष^३- -क्षाणि
काश्रौ २४, ३, ३२; लाश्रौ १०,
१, १०.

अष्टादश-प(द्>)दा^३- -दा
वौश्रु ३ : ३१.

अष्टादश-प्रभेद^३- -दम् आशि
६, १; ६; -दानि आशि ६, १०.

अष्टादश-रात्र^३- -त्रः वौश्रौ १६,
३३ : ११; -त्रम् आश्रौ ११,
२, १६; आश्रौ २३, २, १५;
हिश्रौ १८, १, २२.

अष्टादश(श-ऋ)र्च^३- -र्चम्
शुश्र ३, ३७; -र्चेभ्यः अप ४६,
१०, १५^३.

अष्टादश-लोचन^३- -नः अप २०,
२, ८.

अष्टादश-वेध^३- -धात् अप ३६,
११, १.

अष्टादश-श(त>)ती^३- -त्या

काश्रौ १७, ७, २५.

अष्टादश-श(य>)थी^३- -थ्या
काठश्रौ ९२.

अष्टादश-सूक्त^३- -क्ताः अप २ :
१४.

अष्टादशा(श-अ)क्षर^३- -रः ऋप्रा
१७, ४४; ४५; -रेण शाश्रौ
१०, ८, ११.

अष्टादशाक्षर-ता- -तायाः
निस् १, १ : २०.

१अष्टादशा(श-अ)ङ्गुलि^३- -ल्या
वैश्रौ १, २, ४.

२अष्टादशा(श-अ)ङ्गुलि^३- >
विस्तार^३- -रम् वैश्रौ ११,
९ : ४.

अष्टादशा(श-आ)त्मक^३- -कः
आशि ६, २.

अष्टादशा(श-आ)दि^३- -दयः
मैअ १७.

अष्टादशा(श-अ)त्रिक^३- -कः
द्राश्रौ ८, ४, ७; लाश्रौ ४, ८, ७.

अष्टाशा(श-अ)रलि^३- -लि काश्रौ
८, ६, ६.

अष्टादशा(श-अ)ह^३- -हम्
शाश्रौ १३, २४, ६.

अष्टादशिन- -शिनः आपश्रौ
२०, १३, १३; वौश्रौ १५, २३ :
१२; हिश्रौ १४, ३, १५; निस्
५, ११ : ८.

अष्टा(ष्ट-अ)धि(क>)का^३- -काम्
विध ९०, २१.

अष्टा-नवति- -तिम् वाध २१, २३.

अष्टा(ष्ट-अ)नुवाक^३- -केन काश्रौ
१८, ५, १.

a) ष्ट्रा इति पाठः ? यनि. शोधः । b) =साम-विशेष- । c) व्यप. । अपत्यार्थे अण् प्र. ।

d) विप. । बस. । e) वैप १, परि. च द. । f) विप. । तदस्य परिमाणम् इत्यर्थे कन् प्र. (पा ५, १, ५८) ।

g) तु. टि. अष्टा-कपाल- । h) कास. उप. =प्रमाण-विशेष- । i) =यज्ञ-विशेष- । j) अर्थः ? । k) समाहारे द्विस. ।

l) प्र ४३९ ० द. ।

अष्टा-प(क्ष>)क्षा^१ - क्षाम् शौच
३, २१.

†अष्टा-पञ्चाशत्- -शत् ऋअ २, ९,
९७; ३, ३४.

अष्टा-पद् > ष(द् >)दा- -दा
बौध्रौ ४, १ : ३३; बौशु ३ : २३.
अष्टापदा-प्रभृति- -तीनि निस्
१, ७ : २५.

अष्टापदी^२ - शौच ३, २;
पावा ५, ४, १३९; -दी आपश्रौ
९, १८, १६; बौध्रौ १४, १४ :
३२१; २४, १८ : १६; माश्रौ
३, ५, १८; वाध्रौ ३, ४५ : ९;
वैश्रौ २०, ३७ : ४; हिश्रौ १५,
८, १५; कौसू ४५, १; अप्राय २,
५; अश्र ५, १९१; या ११,
४०१; -दीम् वैताश्रौ ४१, ६;
माश्रु १, ४, १५; -द्याः माश्रौ
३, ५, १८; -द्याम् शाश्रौ १३,
३, ५; -द्यै बौध्रौ २३, ६ : १४.

अष्टापदी-वत् काश्रौ १५,
९, १२.

अष्टा-पद^३ - ऋत ५, २, ३; पाग २,
४, ३१.

अष्टा-पर्ण^४ - णः शौच ३, २.

अष्टा(ऽष्ट-अ)पस्त्राव^५ - -वम् बौध्रौ
१२, १४ : १५.

अष्टा-पाद्य^६ - -द्यम् गौध १२, १२.

अष्टा-पिलक^७ - -कम् बौध्रौ २६, ८ :

१७.

अष्टा-पृड^८ - -डम् माश्रौ ३, ५, १८.

अष्टा-पृष्ट^९ - -ष्टः बौध्रौ १८, १५,
१०.

अष्टा-प्रूष^{१०} - -प्रूष् आपश्रौ ९, १८,
१६; १९, ११; बौध्रौ १४, १४ :
१४; २६, ८ : ११; वैश्रौ २०,
३८ : ४; हिश्रौ १५, ८, २४.

†अष्टा-बन्ध^{११} - -न्धम् वैश्रु १,
९ : ५१.

अष्टा-भृष्टि^{१२} - -ष्टि माश्रौ २, ३, १,
१५.

अष्टा-योग^{१३} - -गैः शौच ३, २१.

अष्टा(ष्ट-अ)वत्त^{१४} - -त्तः बौध्रौ ६,
११ : १४; वाध्रौ ४, ४५ : ५;
४६ : २.

अष्टा(ष्ट-अ)वर, रा^{१५} - -रम् कौसू १८,
३४; -राम् वैश्रु १, ३ : १७.

अष्टा(ऽष्ट-अ)वस्त्राव^{१६} - -वे वाध्रौ ३,
६९ : २८.

†अष्टा-विंशति^{१७} - -तिः आपश्रौ २१,
१६, ७; १२; बौध्रौ; -तिम्
बौध्रौ २६, २५ : ९; आम्रिष्ट २,
५, १ : ३२; ४ : ६; ६ : २०;
जैगृ २, ९ : २४; -तीनाम्
आपश्रौ २२, २, ३; हिश्रौ १७,
१, २१; -त्या आम्रिष्ट २, ५, ६ :
२९; अशां १, १; हिश्रु २, १७.
†अष्टाविंश- -शम् बौध्रौ १८,

३७ : १२^{१८}; १७^१; -शाः बौध्रौ
१६, ३४:७^{१९}; -शानि अप १,
२६, २^१; -शे^{२०} आपश्रौ २३, ९,
८; १४; बौध्रौ १७, २६ : १२;
हिश्रौ १८, ३, १३; १६.

अष्टाविंशक^{२१} - -कम् अश्र ८,
७; ९, १०.

अष्टाविंशति-भाग- -गान् बौशु
२ : २३.

अष्टाविंशति-रात्र^{२२} - -त्रम् आश्रौ
११, ३, ११; काश्रौ २४, २, २२;
आपश्रौ २३, ४, ९; हिश्रौ १८,
२, ५.

अष्टाविंशति-शत^{२३} - -तम् बौशु
१६ : १६; -तानि लाश्रौ ८,
१०, २.

अष्टाविंशति-शतमान^{२४} - -नानि
लाश्रौ ८, १०, २.

अष्टाविंशति-सूक्तक^{२५} - -कम् अश्र
१८, १.

अष्टाविंशत्य (ति-अ) क्ष (र>)
रा^{२६} - -रा वाध्रौ ४, १००^२ : ३;
निस् १, २ : ६; ऋप्रा १६, २१;
-राम् वाध्रौ ४, १००^२ : ९.

अष्टाविंशत्य(ति-अ)कुल^{२७} - -लः
अप २७, २, २; -लम् अप २३,
१०, २.

अष्टाविंशत्यू (ति-ऊ)न- -नम्
आपश्रु ५, ८.

a) वैप १, परि. च द्र. । b) =हिरण्य- । बस. । c) विप. । बस. । d) विप. (विमित-) ।
बस. । उप. । =नालिका । e) =अष्ट-गुण- । विप. । व्यु. ? द्विस. उप. <पाद-इति ? PW., कुल्लुकः [मनौ ८. ३३८]
आ/पद् इति । f) =अष्टा-पृड-, प्रूष- । विप. (हिरण्य-) । बस. उप. पिल[ड]क- [तु. संस्कृतः टि. पिलका-
वत्-] =पृड- =प्रूष- [=विन्दु (तु. भा. तै ३, ४, १, ४ ल तद्वत् समुच्छ्रित- भाग-)] । g) विप. । उप. =स्तोत्र- ।
h) पाठः ? अष्टा-बन्धुर-> -रम् इति C. (तु. ऋ १०, ५३, ७) । i) विप. (आदित्य-पात्र-) । बस. पूष. दीर्घः
(पा ६, ३, १२६) । उप. =सक्ति-, अश्रि- । j) विप. । अष्टधा अश्रित =खरिडत- इति कस. । k) विप. (शत) ।
तदस्मिन्मधिकमित्यर्थे ङः प्र. (पा ५, २, ४६) । l) =अष्टा-विंशति- । स्वार्थे ङः प्र. । m) नाप. (पवमान-स्तोम-) ।
तदस्य परिमाणमित्यर्थे ङः प्र. (पावा ५, १, ५८) । n) तदस्य परिमाणमित्यर्थे इवुन् प्र. (पा ५, १, २४) । o) =सत्र-
विशेष- । p) दस. वा मलो. कस. वा । q) कस. उप. =परिमाण-विशेष- । r) पृ ४३९० द्र. ।

अष्टाविंशिन्- -शितौ शांश्री
१३, २५, ५.
अष्टा-शफ^१- -फम् वाधूश्री ४,
१०० : ३० -फा: वीश्री २, १८:
१९; -फौ वाधूश्री ४, १९: ४६.
†अष्टा-शाल- > अष्टाशालीय-
ऋत ५, २, ३.
अष्टा(ष्ट-अ)शीति- -ति: ऋप्रा
१६, ९०.
अष्टाशीति-शत- -तम् आपशु
६, ९; काशु २, २; वीशु १ : ४;
हिशु २, ३८.
अष्टाशीति-सहस्र- -स्त्राणि
आपध २, २३, ४; ५; हिध २,
५, १५८; १५९.
अष्टा(ष्ट-अ)श्र^१[, अि]- -श्रम् वैशु
४, १३ : ८; -श्रय: वाश्री ३,
४, ५, २२; -श्रि काश्री ६, १,
२७; माश्री १, ८, १, १६; वाश्री
१, ६, १, १७; -श्रि: आपश्री ७,
३, २; वीश्री २०, २५ : ११;
१२; -श्रिम् काश्री ६, १, २६;
आपश्री ७, ३, ४; १६, ४, १०;
वीश्री ४, १ : ३०; भाश्री ७,
२, ८; १०; माश्री १, ८, १,
१४; वाश्री १, ६, १, १५; वैश्री
१०, २ : ६; हिश्री ४, १, ३०;
३३; -श्री आपश्री १९, १६,
१५; हिश्री २२, १, १२.
अष्टा-पष्टि- -ष्टि: ऋप्रा १६, ८४.
अष्टा-सप्त-त्रिंशत्- -शतम् निसू

५, ११ : ८.
अष्टा(ष्ट-अ)ह- -हे काश्री २३,
५, १५.
अष्टाहो(ह-ऊ)न- -नम् वीश्री
२६, २६ : ६; ११.
अष्टा(ष्ट-आ)हुति^१- -ति: शांगु ३,
१३, ४^०.
अष्टिका- -का^d आपशु ५, १२.
‡अष्टिका-दशिका- -के^d हिशु
२, २२?^०.
अष्टिन्- -ष्टिन: ऋप्रा १, १०, २;
शुश्र ५, ७२; ऋप्रा ९, २८;
-ष्टिनो लाश्री ६, ८, ४; -ष्टिनो:
ऋप्रा १, ७, ५; शुश्र ५, ४६; ऋप्रा
१६, ४९.
अष्टे(ष्ट-इ)ड^१- -ड: लुसू ३, ७ :
१२; निसू ६, १० : १८.
अष्टे(ष्ट-इ)ष्ट(का >)क^१- -कम्
काश्री १७, १२, १७; -कान् काश्री
१८, ६, ७.
अष्टो(ष्ट-उ)त्तर^१- -र: ऋप ३६,
३०, ३; -रम् या १४, ८.
अष्टोत्तर-सहस्र- -स्रम् आमिष्ट
२, ५. ६ : १९; ऋप ३६, ५, ३;
-स्रेण अप ३६, ५, २.
अष्टो(ष्ट-ऊ)न- -नम् ऋपं ४ : ४.
२अष्टन्^१- (> अष्टि-पा.) पाग ४,
१, ९६.
‡अष्टनम्^१ वीश्री १२, १४ : १७.
अष्टम- १अष्टन्- द्र.
अष्टवै √अश (व्याप्तौ) द्र.

अष्टि^१- -ष्टय: ऋप ४, ७; ऋप ३, २७;
१०, ९; १७, १; १९, ३९; उनिसू
५ : २५; -ष्टि: निसू १, ५ : ५;
ऋप; -ष्टी ऋप २, १, १३५;
अश्र १३, ३.
आष्टिक- -कम् ऋप ३, २६.
अष्टि-प्रभृति- -तय: निसू १, ९ :
२२.
अष्टय(ष्टि-अ)तिजगती-ष्टि- -तय:
ऋप २, ४, १.
अष्टया(ष्टि-आ)दि- -दि ऋप २, २,
२२.
अष्टिक-, अष्टिन्- १अष्टन्- द्र.
अष्टु- √अश (व्याप्तौ) द्र.
अष्ट्रा^१- -ष्ट्राभ्य: वाश्री ३, ४, २, ७;
-ष्ट्राम् आपश्री १६, १८, ४†;
२२, २६, ५, वीश्री १८, ८ : ५;
९ : २१; वैश्री १८, १५ : १२†;
हिश्री ११, ६, २६†; २३, ४, २१;
आमिष्ट ३, ८, २ : ७†; कौसू
८०, ५०†; ऋप्रा १४, ५८†.
अष्ट्रा-विन्- पावा ५, २, १२२.
‡अष्टीवत्^१- पा ८, २, १२; -वतो:
शांश्री ४, १४, ३२; द्राश्री ९, १,
१८; लाश्री ३, ५, १९; कौशु ५,
३, २२; कौसू ८१, १३; शुश्र ४,
२११; -†वस्याम् आपमं १, १७,
४; अश्र ११, ३, (२); -†वन्ता
आश्री ३, ३, १; शांश्री ५, १७, ५;
-†वन्तौ आपश्री १६, ३३, ५†;
वैश्री १८, २१ : २३†; हिश्री ११,

a) विप. । बम. । b) बस. उप. =कोण- । c) पामे. पृ ४३८ । द्र. । d) अष्टिका,
दशिका <> ‡अष्टिका^० इति पामे. । e) †ष्टिकदशि^० इति पाठः ? यनि. शोधः । f) बस. उप. इडा-
(स्तोभत्रकारेण सामसूच्यार्यामाण- उप उव इत्यादि पदत्रिशेष-) । g) =ऋषिविशेष- । व्यु. ? । h) अर्थः व्यु.
च ? सप्र. आपश्री १८, १८, ६ कृत्यधीवासम् इति पामे. । i) नाप. ([६४अक्षरात्मक-] छन्दोविशेष-) । व्यु. ? ।
j) नाप. (प्रतोद-) । व्यु. ? <√अश [व्याप्तौ] वा √अश [वेधने] वा (तु. टि. वैप १, ६२], ४९४ f च) ।
k) उष्ट्राम् इति पाठः ? यनि. शोधः (तु. ऋ ४, ५७, ४) । l) नाप. [जानु- (तु. पाका.; वैतु पासिकौ. व्यप.
‡ऋषि-विशेष-)] । वैप १, परि. च द्र. ।

आपध १, २०, ६; हिघ १, ६, २०; ऋस्मः शांश्रौ ८, ९, ३; काश्रौ ९, १२, ९; आपश्रौ ९, १२, ४; बौश्रौ ५, १६ : ६; माश्रौ ८, २१, ६; माश्रौ २, ५, ४, २४; वाघुश्रौ ४, १९ : ९; वैश्रौ ९, १० : ११; हिश्रौ ५, ५, ८; निस् ३, ६ : ३१५; ऋस्मसि शांश्रौ १५, २६, १; ऋप्रा ८, ४५; ऋसति बौश्रौ ५, १६ : १३; आपमं १, ४, ५; कागृ २५, ५; गौपि २, ६, २२; अप्रा ३, ४, १; ऋसत् आश्रौ १, ११, १; शांश्रौ ४, ५, ८; काश्रौ १२, २, २; आपश्रौ १, १०, ११; बौश्रौ ६, ७ : ८; माश्रौ ३, १३, १; वाघुश्रौ ४, ५ : ८; वैश्रौ १९, ६ : ११५; हिश्रौ २, ६, ३४; जैश्रौ १६ : ८; लाश्रौ ५, ३, ५^४; आपमं २, १, ३^०; कौगृ १, १९, १०; हिगृ १, २०, १^९; २, ६, १०^०; ऋअ २, १०, २७; ऋसन् काश्रौ ४, २, १२; बौश्रौ ८, १५ : १३; हिश्रौ १४, ४, ३८; आम्रिगृ ३, ६, १ : २५; कागृ ४५,

१२; बौगृ १, ३, ३५; बौपि १, ९ : २; या ४, १९^०; अससि बौपि १, १५ : २०^२; ऋसः बौश्रौ १८, १७ : ३; आपमं १, २, ८; पागृ १, ६, ३; आम्रिगृ २, ४, १ : २१; कागृ २५, ५; बौगृ १, ४, १०; भागृ १, १५ : ९; जैगृ १, २२ : २; अप्रा १, १, २७; ऋसाः^० आपमं २, १, ६; आम्रिगृ २, २, ५ : १६; ऋसाथ वैताश्रौ २२, १; कौस् ७९, १७; अअ ३, ८; ऋस्तु आश्रौ १, ४, १३; १२, ३४^०; ३, ११, ७; ४, १२, २^३; शांश्रौ १, ४, ५; काश्रौ २, १, ३; आपश्रौ १, १, ४; ९, २, ९^०; ५, ६^६; १४, २७, ७^६; बौश्रौ १, १२ : ३६; माश्रौ १, ५, १; माश्रौ १, १, ३, २७; २, ३, ८, ४^३; वाघुश्रौ २, १६ : २; वाश्रौ १, १, १, ४९; वैश्रौ १, ९ : ५; वैताश्रौ १७, ८^१; आपमं २, ७, २^१; आगृ १, २, ११^१; २१, ७^६; २, ४, १४^१; कौगृ १, ५, २९; ९, ७; शांश्रौ २, ४, १^६; ४, १८, १^१; पागृ १, ८,

८^६; मागृ १, १, २४^१; ९, २७^१; १०, १३^६; २२, १०^६; २, १७, १^१; हिगृ, १, ५, ११^०; ९, ६^१; कौस् ११७, २^०; १२९, २^१; १३५, ९^१; स्तात् शांश्रौ ६, १३, २^०; ऋस्ताम् आश्रौ १, ९, १; शांश्रौ १, १४, ३; आपमं १, ८, ७; कौस् ५४, १७; अप ३२, १, १९; अअ ८, २; अपं ३ : ४०; ऋसन्तु आश्रौ १, २, १; २, १०, १८^१; ३, ५, २^१; ११, ६^०; शांश्रौ ४, ९, १; ८, १२, ११^१; १५, १३^१; ९, २८, १०^१; काश्रौ २, २, १०^१; आपश्रौ १, १४, १२; ३, १९, ३^१; ६, २९, १^१; १३, १८, १^१; बौश्रौ २, ५ : २८; माश्रौ १, ११, १; माश्रौ १, ५, २, १९; वाश्रौ १, ६, ६, ११; वैश्रौ ५, ५ : ५; हिश्रौ १, ४, १०; लाश्रौ २, २, ११^१; ५, ४, ६^१; ७, ५^१; आपमं १, १, १०^१; २, १४, ११^१-१४^१; १५, १६^१; कौगृ १, ८, १८; कौस् १३७, ११^१; विधि ४८, १०^१; ऋषि आश्रौ २, ९, १०; ५, १३,

- a) पाभे. वैप १ परि. असति तै १, ८, ६, २ टि. द्र. । b) सपा. शौ ६, ६८, ३ विशिष्ट पाभे. । c) पाठः ? असः इति शोधः (तु. सपा. ऋ १०, ८५, ३६ आपमं १, ३, ३ प्रसृ.; संटि. च) । d) सप्र. असत् <> असाः इति पाभे. । e) पाभे. वैप १ परि. अस्तु शौ ११, २, १५ टि. द्र. । f) पाभे. वैप १ परि. अस्तु तै ४, ४, १२, ३ टि. द्र. । g) पाभे. वैप १ परि. असि तै ३, १, ९, ३ टि. द्र. । h) पाभे. वैप १ भूयात् तै ३, २, ७, ८ टि. द्र. । i) पाभे. वैप १ परि. अस्तु मा ३, ६२ टि. द्र. । j) सपा. अन्तु <> कृणोत इति पाभे. । k) पाभे. वैप १ परि. अनु^० एत शौ ३, ८, ६ टि. द्र. । l) पाभे. वैप १ १७०५० द्र. । m) पाभे. पृ ४४६ y द्र. । n) पाभे. वैप १ भवन्तु मै ४, १०, ६ टि. द्र. । o) पाभे. वैप १ ११३८ t द्र. । p) पाभे. वैप १ भूयात् मा ५, ३३ टि. द्र. । q) पाभे. वैप २, ३३. भवन्तु तैत्रा २, ५, ३, ३ टि. द्र. । r) पाभे. वैप १ भूयात्सुः काठ ३८, ५ टि. द्र. । s) पाभे. वैप १ सचध्वम् शौ ३, १४, ६ टि. द्र. । t) पाभे. वैप १ परि. सन्ति मै ४, ९, ९ टि. द्र. । u) पाभे. वैप १ परि. सन्ति शौ १९, ४७, ३ टि. द्र. । v) पाभे. वैप १ ११३८ p टि. द्र. । w) पाभे. वैप १ भवन्तु शौ १२, १४, १ टि. द्र. । x) सपा. सन्तु <> भूयासम् <> भूयास्म इति पाभे. । y) शन्तु इति पाठः ? यनि. शोधः द्र. (तु. शौ १४, १, ४०) । z) पाभे. वैप १ स्वदन्तु मा ४, १९ टि. द्र. ।

१४^०; शांश्रौ १, १५, १२;
 ७, १८, १^०; काश्रौ १५, ५,
 ३२; आपश्रौ २, २१, १^०; ४,
 ६, २^३; ९, १८, १०-५^०; २२, १९,
 १^०; बौश्रौ ३, १८ : १; भाश्रौ ४,
 ८, ३^३; माश्रौ १, ६, ४, २५^१;
 वाश्रौ २, १, १, ५२; वैश्रौ १८, ३:
 ९; हिश्रौ २, ५, ४७; आपमं १,
 ८, ९^६; ११, ५^०; २, १५, १८^०;
 आश्रु ३, १२, २^०; कौश्रु १,
 १०, १३^६; शांश्रु १, १७,
 ३^६; पाश्रु १, ८, १९^६; हिश्रु
 १, २०, २^०; २७, ८^०; गोश्रु
 २, ९, ११^१; कौश्रु ४३, १३^१;
 ऋश्रु माश्रौ १, ३, १, ११^६;
 वाश्रौ १, ३, ४, ८^६; आपमं १, ८,
 ९; शांश्रु १, १६, १२; ऋश्रु शांश्रौ
 ८, ८, ११; बौश्रौ ३, ८ : २२;
 कौश्रु २३, ६; ऋश्रु आश्रौ
 १, ११, ८; ऋश्रु ५, १८; असानि
 शांश्रौ १०, २१, ९; आपश्रौ ३,
 २, ८^१; बौश्रौ १७, ३९ : ११;
 भाश्रौ ३, २, १^१; वाधूश्रौ ४, १९ :
 १०; वैश्रौ ६, १२ : ११^१; हिश्रौ
 २, ३, २५; आपमं २, ९, १^१; पाश्रु
 १, ३, २०; २, २, ६^१; आमिश्रु १,
 १, ३ : ३१; असाव वाधूश्रौ ४,

३३ : ६; असाम आमिश्रु ३, ८,
 २ : १९^३; ऋश्रु आश्रौ ३,
 ८, १; शांश्रौ १०, १७, ८; काश्रौ
 २०, ५, २२; आपश्रौ ६, ३०,
 ३०; बौश्रौ ३, १२ : २८; भाश्रौ
 ६, १८, ७; माश्रौ १, ५, २, १२^३;
 ४, १, ११^३; वाधूश्रौ ३, १७ : ११;
 ४, १०३^३; ६; वाश्रौ १, ४, २, २^३;
 हिश्रौ ६, ८, १; कौश्रु १, ७, २; पा
 ८, २, १०२; ऋश्रु शांश्रौ १२,
 ५, ९; कौश्रु १, ८, ४; शांश्रु १,
 १२, ४; आस्ताम् सु २३, ५;
 कौश्रु १, १०, ११; आमिश्रु ३, ४,
 १ : ३२; बौपि ३, ३, ९; ऋश्रु
 शांश्रौ १०, १५, २^३; आपश्रौ;
 ऋश्रु आश्रौ ५, ९, १०;
 १५, २, १; बौश्रौ २, २ : १४;
 भाश्रौ ५, ५, ९; वैश्रौ १, ९ : ८;
 हिश्रौ ३, ३, ३१; स्यात् आश्रौ
 २, ३, १४; शांश्रौ; माश्रौ २, ३,
 ७, १^१; आपमं २, १५, ३^१; ५;
 स्याताम् आश्रौ २, १, ३१;
 काश्रौ २२, ४, २३; आपश्रौ;
 मीश्रु ६, ६, २१^१; स्युः
 आश्रौ १, ३, १; शांश्रौ; स्याः
 शांश्रौ १५, २५, १; २०, १८, १^१;
 बौश्रौ १६, ५ : ११^१; वाधूश्रौ

३, ८८ : १३; सु ६, ३; ऋश्रु ८,
 ३२^१; स्याम् आश्रौ २, ३, २७^३;
 शांश्रौ २, १३, २^३; १०, १४, २;
 काश्रौ; स्याव बौश्रौ १८, ३५ :
 १; माश्रु १, १४, १६^१; वाश्रु
 १६, १; ऋश्रु आश्रौ २, ७,
 ७; शांश्रौ; आपश्रौ ३, २,
 ११^१; १३, २२, १^३; माश्रौ १,
 ६, ४, २१^१; आपमं १, ११,
 ४^१; शांश्रु ४, १८, १^१.
 आस आश्रौ ७, ३, २१; शांश्रौ
 १४, २७, १; आपश्रौ; आसतुः
 वाधूश्रौ ३, २९ : ६; आसुः शांश्रौ
 १४, ६२, २; वाधूश्रौ २, ११ :
 ११; सु ४, ८.
 असि- > असि-पर^३ -रः तैप्रा १०,
 १३.
 अस्य(सि-अ) न्त-भक्षा(क्ष-आ)
 छ^३ - चैः जैश्रौका २०८.
 अस्ति^३ - पाग १, १, ३७.
 आस्तिक- पा ४, ४, ६०;
 पाग ५, १, १२४; १२८.
 आस्तिक्य- पा ५, १,
 १२४; १२८; -क्यम् वाध ६,
 २३; -क्यात् सु ३१, ६.
 आस्तेय- पा ४, ३,
 ५६.

- a) पाभे. वैप २, ३खं. एहि तैप्रा ३, ११, ९, ८ टि. द्र. । b) पाभे. वैप १ भूयात् मै १, ९, ४ टि. द्र. ।
 c) पाभे. वैप १ भवन्तु मै ४, १०, ६ टि. द्र. । d) पाभे. वैप १ परि. असि मा १, २७^३ टि. द्र. । e) पाभे.
 वैप २, ३खं. आसुवस्व तां २१, १०, १९ टि. द्र. । f) पाभे. वैप १ स्योन्ः तै ५, ७, २, ५ टि. द्र. ।
 g) पाभे. वैप १ परि. अस्तु शौ १४, १, ५२ टि. द्र. । h) पाभे. वैप १ अभूः मा १२, ११ टि. द्र. । i) पाभे.
 वैप १, १०२५ । द्र. । j) पाभे. वैप १ भव ऋ ७, ५४, १ टि. द्र. । k) पाभे. वैप १ भूयास्तम् मा २, ७ टि. द्र. ।
 l) पाभे. वैप २, ३खं. असानि माश्र ११, ५, ४, १ टि. द्र. । m) सश्रु. शौ १८, ४, ५५ अस्त इति पाभे. n) पाभे. वैप १
 परि. आसीत् मा ३७, ५ टि. द्र. । o) तु. वैप १, ६०७ g । p) पाभे. वैप १ भूयासम् का ३, ४, १ टि. द्र. ।
 q) पाभे. पृ ६९ b द्र. । पाठः ? स्याः इति शोधः (तु. आपमं [भू XXX]) । r) स्यात् इति कासं. विन्त्यम् ।
 s) सपा. स्याव <> स्याम इति पाभे. । t) पाभे. वैप १ भूयासम् मै १, ४, ३ टि. द्र. । u) पाभे. वैप १
 परि. स्यात् मै १ ३, ३९ टि. द्र. । v) पाभे. वैप १ परि. स्याम तै ५, ७, २, ४ टि. द्र. । w) बस. । x) भक्षोऽसि
 इत्याकारैर्नैरिति कृत्वा बस. । y) सत्तायां धने चेदं प्राति. इति हरदत्तो न्यासकारश्च (पा ४, ३, ५६) ।

अस्ति-क्षी (र >) रा- > रा
(रा-आ) दि-वचन^१- -नम्
पावा २, २, २४.

अस्ति-त्व- -त्वम् वृदे २, १२१.

अस्ति-भवन्ती-पर- -रः पावा
२, ३, १.

अस्थ (स्ति-अ) र्थ- -र्थानाम्
पावा २, २, २४; ३, ३, १३३.

अस्तु पाठभो २, १, ५८.

अस्तु-कार- पावा ६, ३, ७०.

अस्त्व (स्तु-अ) न्त- -न्तम्
आग्नि २, ३, ३: १४; १६;
२१; २२; -न्ता: वैगृ १, ७: ४.

आसीत् > सीद्-अन्त- -न्तानि
वैगृ ५, ४: ३; ७; ९.

आस्ताम् > म्-आसीद्-अन्त-
-न्तानि वैगृ ५, ४: ११; १४.

सत्^२- सत् आश्रौ १, ११,
६^३फ; शाश्रौ; बौश्रौ १९, १०:
३१फ^२; अप ४८, ७५^३; निघ
१, १२^३; या ७, १८फ; १४,
११^३; ३७; ऋप्रा ७, ४३फ; सतः
आश्रौ ४, ६, ३; शाश्रौ; निघ ३,
२९; सता वाधूश्रौ ३, ४०: ६;
कौसू १०८, २फ; अप्राय २, ७फ;
फसताम् आश्रौ ६, ४, १०; शाश्रौ
९, १२, ३; १४, ३१, ५; बौश्रौ;
सति आश्रौ २, १, ३३; ६, ६,
१३; ७, २, ८; ९, ६, ८; ७, २६;
शाश्रौ १२, २, ६; आपश्रौ; सती
निस् ८, ४: ५; सते फआपश्रौ
१४, २९, ३; २०, १, १७; फबौश्रौ;

सतो: निस् ३, ५: २६; १०, १२:
१५; मीस् १०, २, ९; सस्सु

जैश्रौका ४६; निस् ६, १२: १४;
आपश १, ९, १९; हिघ १, ३,

१९; विघ ९, १९; ऋप्रा ११,
६८; या ३, १३; सन्नि: शंघ

३७८; आपश १, १६, ११; २४,
२०; हिघ १, ५, १०; ६, ६८;

कौशि ७; फमदभ्य: आपमं २,
१७, ४; ९-१२; फसन् आश्रौ

२, ५, ७; ९, ७, २; शाश्रौ; या ३,
११; ४, १४; सन्त: फआश्रौ

२, ६, २; ७, ७; फशाश्रौ;
या १, १; ९, १६; ११, १६फ;

सन्तम् आश्रौ २, ५, ७^२फ^०;
आपश्रौ ६, २५, २फ^०xx; या

१४, १८फ^०; २६फ^०; सन्तौ निस्
१, १२: ८; सा (<स)न्ति

ऋप्रा ९, ४७फ^०.

सन्ती- -ती शाश्रौ १६, ११, १७;
बौश्रौ; या ११, ३२; -ती: निस्

७, ८: ७; या १४, २०फ^०; -तीम्
आपश्रौ २, ११, १०फ^०; बौश्रौ

१, १०: १६फ^०; भाश्रौ २, ११,
११फ^०; हिश्रौ १, ८, ३१फ^०;

अप १^०, १, ४फ^०; शंघ ११६:
६५^०; वृदे; या ७, १२फ^०; -तीषु

वाधूश्रौ ३, ८९: ४; -त्यः
वाधूश्रौ ३, ९: १९; -त्या: या

२, १८; ४, १६.

स्थ: > स्थ-पर- -रः तैप्रा ४, ४६.
✓अस्^३ पाधा. दिवा. पर. क्षेपणे,

अस्यति काश्रौ १४, ३, १६;
१५, २, ७; १७, १, ३; १८, २, ४;

आपश्रौ; या १०, ३४; अस्यतु
आपश्रौ १७, २२, १फ^०; अस्य या

६, ३फ^०; अस्यतात् बौश्रौ १२, १२:
१३; अस्येत् लाश्रौ ९, १, १६;

फअस्येयु: द्राश्रौ १०, २, १३;
लाश्रौ ३, १०, १३; अस्ये: द्राश्रौ

१०, २, १३; लाश्रौ ३, १०, १५.
असिष्यति बौश्रौ १२, १२: १५.

आस्थत् या २, २.

अस्यते भाश्रौ ३, ९, ९; हिश्रौ २,
५, ३३.

असन- > न-चक्र^१- -क्रम् या ५,
२६.

असनीय^१- -यम् बौश्रौ २, १०:
४१; ११: ९.

फअमितृ- -ता या ६, १२फ^०.

१अस्त- -स्त: या ३, ८; -स्तम्
वाश्रौ ३, ३, ३, ४फ^०; -स्तम्-

S-स्तम् भाश्रौ ३, ९, ८; -स्ता:
या ३, ८; १०, ३४.

अस्त-तर- -रः या ३, १६.

फअस्तृ- -स्ता आश्रौ ६, ३, १;
७, ९, ३; शाश्रौ ९, ३, ४; १२,

१२, ५; वैताश्रौ ३३, १९; ऋअ
२, १०, ४२; वृदे ७, ४०; अअ

११, २; २०, ८९; ऋप्रा १४,
६०; या ५, ४; ६, १२; -स्तारम्
शाश्रौ १२, १४, १^६; १७, ५, ३;

-स्तु: या १०, २१; ११, ८.
अस्वा वाश्रौ ३, २, ५, ४९.

a) बस. > षस.। b) विप., नाप.। वैप १ द्र.। c) सद्यः इति पाठः? यनि. च ये

इति च द्विपदः शोघः (तु. तैआ १ ११, १)। d) =जल। e) पाभे. वैप २, ३खं. सन्तम् तैआ १, २, १,
२७ टि. द्र.। f) पाभे. वैप १ हिताम् काठ ३१, १४ टि. द्र.। g) =देवी-। h) या

१, ९; ७, १२ पा ३, १, ५२; ७, ४, १७ पावा १, ३, २९; ३, १, ५२ परामृष्टः द्र.। i) विप.।
बस.। j) वस^० इति काचित्कः मूको. पाठः। k) वैप १ परि. अस्ता शौ २०, १२७,

६ टि. द्र.।

वैप ४-प्र-५७

अस्य माण्ड २, ७, २; ११, ९.
 अस्यत्- -स्यन् बौध्रौ १५, १० :
 २३; वैताश्रौ ३३, १९५.
 अस्यमान- -नम् हिश्रौ ६, ४, ६.
 अ-संयता(त-आ)त्मन्- -त्मा बौध
 १, ५, ८६.
 अ-संयुक्त, का- -क्तम् लाश्रौ १०,
 २, ११; मैत्र ३२; ऋप्रा ६, २४;
 १५, १२; उस् ८, ६; मीस् ३, ३,
 ११; ६, २८; ३२; ७, १; ४, ४,
 ३४; -क्तस्य मीस् १०, ६, ५६;
 -क्ता मीस् ६, ६, ३८; -क्ता:
 आपश्रौ २४, ११, १०५; पावा
 ७, ३, १०७; मीस् १०, ३,
 ४२.
 अ-संयुज्य शाश्रौ १, १, ४.
 अ-संयुत- -तम् पाशि १६; याशि
 २, ५७.
 १अ-संयोग- -गात् मीस् १, २,
 ४८; २, ४, ३२; ३, ३, १६; ५, १,
 २७; २८; ६, ३, ९; ९, १, ४१; ४,
 १; १०, ३, ४३; १२, ४, ३५;
 -गे शौच १, ५१.
 २अ-संयोग^a- -गात् पा १, २, ५.
 असंयोग-संयोग^b- -गः आपध १,
 २१, ८; हिध १, ६, ३८.
 अ-संयोग-पर- -रम् तैप्रा २२,
 १५.
 अ-संयोग-पूर्व- -र्वस्य पा ६, ४,
 ८२; -र्वात् पा ६, ४, १०६;
 -र्वे पावा ६, ४, ८२.
 अ-संयोगा(ग-आ)दि- -दिः ऋप्रा
 ६, ३.
 अ-संयोगो (ग-उ) प (धा >) ध-

-धात् पा ४, १, ५४.
 अ-संरोध->^cतर- -रः लाश्रौ १०,
 ९, ८; निस् ६, ७ : ५४.
 अ-संलभन- -नाय वाश्रौ ३, ४, ४,
 १७.
 अ-संलोकिन- -की द्राण्ड ४, २, १४.
 अ-संवत्सर^d- -रम् बौध्रौ २२, ३ : ४.
 अ-संवत्सर-दीक्षित- -ताय शाश्रौ
 १६, २०, १०.
 अ-संवत्सर-भृत- -तः आपश्रौ
 १६, ८, १२; वैश्रौ १८, ६ :
 १२; हिश्रौ ११, ३, १; -ते काश्रौ
 १६, ६, ९.
 अ-संवत्सरभृतिन्- -तिनः काश्रौ
 १७, ५, ६.
 अ-संवत्सर-भृतो (त-उ) ख^e-
 -खाय शाश्रौ १६, २०११.
 अ-संवत्सरो (र-उ) वित- -ताय
 वाध २४, ६; बौध ४, ४, ९; शुभ्र
 ४, २२०.
 १अ-संवप (त >) न्ती- -न्ती
 आपश्रौ १, २१, ७; बौध्रौ १,
 ७ : १५; भाश्रौ १, २३, १०;
 वैश्रौ ४, ८ : ११.
 अ-संवर्तमान- -नः शाश्रौ १६, १,
 ८; -नौ आमिण्ड १, ६, ३ : ४४;
 जैण्ड १, २२ : १२.
 अ-संविज्ञातो (ता-उ) पसंगमन^e-
 -नात् गौध ४, १३.
 अ-संविदान>ना- -नाः शाश्रौ
 ३, ६, १.
 अ-संवृत्^f- -तम् वाध १८, १५?^g.
 अ-संवृत्त- -त्तौ आपध १, १४, ५,
 हिध १, ४, ३८.

अ-संवेशन- -नम् आपध २, १,
 १६; हिध २, १, १५.
 अ-संशब्दयत्- -यन् वैश्रौ ६, २ : ७.
 अ-संशय- -यः ऋभ्र ४, ९; -यम्
 अप ३६, ८, ३; ३८, १, १; ६९, १,
 २; ७०, १, २; ३; ७, ३; बौध
 ४, १, १३; १९; विध १, २०; -ये
 हिपि २० : २.
 अ-संशित-व्रत- -ताः वाधूश्रौ ४,
 १८ : २५; २९.
 १अ-संशि (त >) ता- -ता बौध्रौ
 १३, १३ : ३; हिश्रौ २२, ३, ३.
 अ-संशुष्क- -कान् वैश्रौ १, ७ : ११.
 अ-संश्रवण^h- -णे आश्रौ ८, १४, १२.
 अ-संश्रावम् शुप्रा ८, २८.
 अ-संश्रावयत्- -यन्तः आमिण्ड ३,
 ५, ६ : ९.
 अ-संश्रिष्ट- -ष्टः आपश्रौ २१, १,
 १०; हिश्रौ १६, १, ६; -ष्टान्
 आपश्रौ १२, ९, १०?^h; वैश्रौ १५,
 १० : २; ११ : ११; -ष्टौ
 काठश्रौ १२२.
 अ-संसक्त, का- -क्तम् माश्रौ १,
 ३, २, २६; माण्ड २, २, २२; -क्ताः
 माश्रौ १, २, ६, १६; कप्र २, ३,
 १४; -क्ताम् आपश्रौ २, २१, ६;
 माश्रौ १, १, २, १८; ७, ६, ३७;
 वाश्रौ १, ५, २, ३९; वैश्रौ ९,
 ९ : २; हिश्रौ २, २, ४९; आमिण्ड
 १, २, २ : १२; ७, ३ : २९;
 हिण्ड १, ३, ७.
 अ-संसर्ग- -र्गः मीस् ९, ४, ३३.
 असंसर्गा(र्ग-अ)र्थ- -र्थम् पावा ३,
 २, १२७.

a) विप. । बस. । b) पूष. =प्रतिलोम- । c) तस. वा. क्वि. । d) तस. > कस. > बस. । e) तस.
 > षस. । f) =नरक-विशेष- । तस. उप. <सं/वृ [आच्छादने] । g) °त्तम् इति पाठः ? यनि. शोधः (तु.
 मनुः ४, ८१) । h) संश्रिष्टान् इति पाठः ? यनि. शोधः (तु. वैश्रौ १५, ११ : ११, ०. च असंस्पृष्टान् हिश्रौ ८, ३-
 ७ इति पाठे. ब) । i) सप्र. असंश्रिष्टान् <> असंस्पृष्टान् इति पाठे. ।

अ-संसव- -वः काश्रौ २५, १४, २२; बौश्रौ २३, ५ : ११; १२; १३^३; द्राश्रौ ३, ३, २१; लाश्रौ १, ११, १२.

अ-संसारयत्- -यन् वाश्रौ १, ३, १, २९^४.

अ-संसिध्यमा(न>)ना- -नाश्राम् कौश्रु ३, ११, ४६^०; शाश्रु ४, ११, १५; वाश्रु ९, २०.

अ-संसृजत्- -जन् शाश्रौ २, ९, ४; वाश्रौ १, ३, ४, ३५.

अ-संसृज्यमान- -नानि बौश्रौ २०, ८ : ३४.

अ-संसृष्ट, घा- -ष्टम् बौश्रौ ३, ६ : ११; वैश्रौ ४, १० : १६; ९, ३ : १४; हिश्रौ ५, ३, ४३; कप्र २, ९, १६; -ष्टाः वैश्रौ १८, १३ : १०; -ष्टाम् आश्रौ २, ३, १८; काश्रौ ३, ३, २८; वैश्रौ ६, १० : ४; -ष्टे पावा ४, ४, २४.

अ-संसृष्टिन्-> ष्ट-विभाग-
-गः गौध २८, २८.

अ-संस्कार- -रः शाश्रु १, ३, १३; -रे बौश्रु ४, ११, १; मीसू १, ४, १०.

अ-संस्कार्य- -र्यः वाध ४, ३.

अ-संस्कृत, ता- -तम् आमिश्रु २, ७, ७ : २; -तया विध १५, ११; -ता विध १५, ९; २४, ४१^३; -ताः विध २७, २७; -तान् विध ५१, ५९; -ताम् बौध २, २, २४; -तायाम् आपध २, १३, ३; बौध १, ६, २१; हिध

२, ३, ३; -ते काश्रौसं ३२ : १३; बौध २, १, २३; विध २२, ३०; -तेन आपश्रौ ७, १०, २; कौश्रु १, ४, ७; शाश्रु १, ८, २३; -तेषु मीसू ६, ८, २; १२, ४, १८; २१; -तौ कप्र २, ७, ७.

असंस्कृत-प्रमीत^०- -तानाम् विध ८१, २२.

अ-संस्तव- -वेन या १२, २.

अ-संस्तीर्ण- -र्गानि निम् १०, ५ : १.

अ-संस्तुत, ता- -तम् वृदे ३, ४८; ८१; -तस्य वृदे १, ११९; -ता विध ३२, ७.

अ-संस्थापन- -नम् बौश्रौ २३, ७ : ९.

अ-संस्थाप्य बौश्रौ १७, ४६ : १; २३, १२ : २५.

अ-संस्थित- -तः आपश्रौ ६, १४ : ४^१; वैश्रौ २, ९ : १२; -ते शाश्रौ ६, १३, ६; आपश्रौ ३, २०, ६; बौश्रौ २१, २१ : २०; २८, ७ : १३; वैश्रौ २०, ३६ : ४; हिश्रौ ७, ७, २४.

!असंस्थिमति वाश्रौ ३, ४, २, ३.

अ-संस्पर्शन- -नम् शाश्रौ ७, ५, १०.

अ-संस्पर्शयत्- -यन् काश्रौ ३, २, २; आपश्रौ; या ७, २३; -यन्तः माश्रौ २, ४, १, ४३.

अ-संस्पृशत्- -शान् आपश्रौ १५, ७, ६; माश्रौ ११, ७, १५; -शान्तः आश्रौ ३, ६, २५; क्षुसू १, ११ : १०.

अ-संस्पृष्ट, घा- -ष्टः मीसू ११, १, ५९; -ष्टाः आपश्रौ १, १६, १०; २, ३, १३; ९, १५; १६,

१५, ९; १७, ६, ५; -ष्टान् हिश्रौ ८, २, ३८^०; ३, ७^०; -ष्टाम् हिश्रौ १, ७, १५; वाश्रु १०, ११; -ष्टे बौश्रौ ७, २ : ९; -ष्टौ आपश्रौ १२, १३, १०; हिश्रौ ८, ३, ५५.

अ-संस्यन्दमान- -नम् काश्रौ २, ५, २६.

अ-संस्यन्दयत्- -यन्^४ आपश्रौ १, २५, १५; भाश्रौ १, २६, १०; माश्रौ १, २, ४, ३; हिश्रौ १, ६, ५७^१.

अ-संस्यु(त>)ता- -ताः पाश्रु २, १४, २५.

अ-संस्वाद^६- -दम् गोश्रु ३, ८, १४.

अ-संहत- -तम् माश्रौ २, २, ३, ३५^४.

अ-संहरिष्यत्- -यन् काश्रौ २, ५, १५.

अ-संहान^१- -नान् मीसू १०, १, २६.

अ-संहा(र्य>)र्या- -र्याम् बौध ३, ३, २१.

अ-संहित, ता- -तः शुशा १, १५६; -तम् ऋप्रा १०, १७; पावा १, ४, १०९^३; -तानाम् ऋप्रा १, ५९; -ते^४ आपश्रौ ११, १३, ६; हिश्रौ ७, ६, २८.

असंहितवत् ऋप्रा ३, २५.

अ-संहा[ह]दयत्- -यन् काश्रौ १, १०, ९; जैश्रु २, ५ : १४; -यन्तः आश्रु ४, ५, ५.

अ-सकल- -लम् कौसू ८०, १२.

असकस्- अदस्-द्र.

अ-सका(म>)मा^१- -मायाम् शंघ ३३२.

अ-सकार- -रात् शौच ४, २४.

a) सप्र. *सारयन् <> *स्यन्दयन् इति पाभे. । b) *सिद्धिमा^० इति पाठः ? यनि. शोधः (तु. शाश्रु.) ।

c) कस. उप. <प्र/मी[हिंसायाम्] । d) पाभे. पृ ४५० h द्र. । e) पृ ४५० g टि. द्र. । f) *संस्व^० इति पाठः ? यनि. शोधः (तु. आपश्रौ. प्रश्रु.) । g) तस. वा. क्वि. । h) सप्र. *हतम् <> *हिते इति पाभे. । i) तस. उप. <सं/हा[त्यागे] । j) तस. >बस. ।

अ-सकाश^a- -शे बौध्रौ ३, १३ : ५;
भाश्रौ ६, ५, २; ७; माश्रौ १, ६,
३, १०; १२; वाश्रौ १, ५, ४, ३१;
३४; वैश्रौ २, १० : ३; ९; हिश्रौ
६, ७, २; माश्रु १, ४, १५; २,
५, २.

अ-सकृत्^b- -कृत् सु १२, ३; कौश्रु ३,
१०, ३३; शाश्रु २, १५, १०; पाश्रु
१, ३, ३१; द्राश्रु १, ५, ३६; कप्रश्रु
५, १; बौध ३, ५, २; वृदे २, ४;
५६.

असकृत्-प्रयोग- -गः मीसु ११,
४, ४२.

अ-सक्त- -क्तः अर ७०^३, २३, १;
-क्तम् विध १७, १७; -क्तस्य
कप्र ३, २, १; -क्तान् सु ८,
५.

अ-सकथ, क्थि- पा ५, ४, १२१.
†अ-स(क>)क्रा^c- -क्राम् निघ
४, ३; या ६, २९७.

अ-सखि^d- पा १, ४, ७; -खिनाम्
क्षुम् १, १ : १४.

अ-स-गोत्र, त्रा^e- -त्रः आमिश्रु ३, ४,
४ : १६; -त्रम् बौध ३, १, ५;
-त्रस्य बौध्रौ २४, ३२ : ६;
-त्रान् वैश्रु ४, ३ : ३; गोश्रु ३,
४, ३; -त्राम् आमिश्रु १, ६, १ :
३; हिश्रु १, १९, २; जैश्रु १, २० :
२; -त्रायाम् वैध ३, ११, ३;
-त्रेण वैश्रु ३, १८ : ४.

असगोत्र-शब्द-स्पर्शन^f- -ने सुध
४५^{१६}.

असगोत्र-संबन्ध-युक्त- -क्तान्
आमिश्रु ३, ११, १ : १२.

†असग्रम्^h अप ४८, १२७^१.

अ-संकर- -रः गौध ८, ३; -रम्
वैश्रु ५, २ : १५.

अ-संकल्पयत्- -यन् कौसू ४२, ८;

अ-संकल्पित- -तानि बाध १०, ७.

अ-संकुल- -लान् वैश्रु १, १४ : ९.

अ-संकलृप्त- -सम् बौध २, १०,
५२.

अ-संक्रम(ण>)णी- -गीम् या ६,
२९.

अ-संखादत्- -दन् आश्रौ १, १३, १;
शाश्रौ ४, ७, ८; द्राश्रौ १२, ३, १३;
लाश्रौ ४, ११, १३.

असंखादन्ती- -न्त्यौ या ६, ४.

अ-संखाद्य द्राश्रु ३, ३, १३.

अ-सं(ख्या>)ख्य^d- -ख्यम् पावा
१, १, ३८.

अ-संख्यात, ता- -कृता काश्रु ८, ४;
शुश्रु २, २५९; या १, १५; -ताः
कौसू २३, ८; ३६, २२; ५०,
२; -तान् हिश्रौ १२, ३, ४^१.

अ-संख्या(ख्या-आ)दि^d- -देः पा ५,
२, ४९; ५८.

अ-संख्यान- -ने तैप्रा १, ४८.

अ-संख्या-परिमाण (ण-अ)इवा-
दि^f- -देः पा ५, १, ३९.

अ-संख्येय- -यम् अप ४८, ६६;
-याः कौसू १३५, ९^१; विध १६,
७; -यानि बौध २, ६, ३५.

अ-संगत- > आसंगस्य- पा ५, १,
१२१.

अ-संग्रत्- -घ्नन् बौध्रौ २, १४ : ४;
५, १० : १०; १५, ३ : १४;
१८, ८ : १५.

अ-स-जात- -तः शुप्रा ५, ३७^१.

अ-सज्जमान- -नः अप १, ४९, ३.

अ-सज्यमा(न>)ना- -ने या ५, २.
अ-संचयवत्- -वान् काश्रु ४, ११.

अ-संचर^h- -रे काश्रौ २, ३, ३९;
आपश्रौ ७, २७, १५; १९, १२,
२५; बौध्रौ ६, २८ : १७; ७,
१५ : २८; १३, २१ : ७; २०,
१० : ६; २८ : १८; माश्रौ १,
२, २, ५; ६, २, ४, ५; वाश्रौ २, २,
३, ८; हिश्रौ ७, ३, ७४; १२, ३,
६; २३, २, ३६; पाश्रु १, ३, २४.

अ-संचार- -राय लाश्रौ १०, २, १५;
निसू ४, ३ : ३७; ८, ९ : १९.

असंचार-कुशल- -लाः निसू ६, ४ :
१६.

अ-संचारण- -णम् निसू ७, ८ : २९.

अ-संछिन्दत्- -न्दन् वैश्रौ १०, २० :
१४,

अ-संज्ञस- -प्तम् वृदे ४, २९.

अ-संज्ञा- -ज्ञायाम् पा १, १, ३४;
३, १, ११२; २, १८०; ४, २,
१०७; ३, १४९; ५, १, २४; २८;
८, ४, ५; पावा ४, २, २१.

अ-संज्ञात- -तम् बौध्रौ १८, २५ :
१३.

अ-संज्ञा-शाण^l- -णयोः पा ७, ३,
१७.

अ-सत्^c- -सत् वाध्रौ ३, ४० : ६;
जैश्रौ १९, ८; शंघ २६७^१; बौध
१, ५, ८७; ऋअ ३, ३१^१; वृदे
२, १२०; या १४, ३५^१; ऋप्रा २,
७५^१; उसू २, २१^१; भाशि
८५^१; -सतः आश्रौ ४, ६, ३^१;
कशाश्रौ ५, ९, ५; ६, ८, ९;
आपश्रौ ६, ३, १२; बौध्रौ १९,
१० : ३१^१; वृदे १, ६२;

a) =अ-संनिधि-। b) तस. वा. क्तिवि.। c) वैप १, परि. च द्र.। d) विप.। बस.। e)

तस. > बस.। f) कस. > षस.। g) 'नोत्र' इति पाठः ? यनि. शोधः। h) =चर्म-नामन्-। व्यु. ?।

i) असग्रम् इति मूको.। j) तस. > द्रस.। k) तस. उप. नाप.। l) वैप १, ५२७ j द्र.।

†ऋप्रा^२ २,७६^२; १४,६१; †उस्^३
२, १४; २०; अत्रा १,१, १२†;
-सता वाधुश्री ३,४० : ६; ऋप्रा
२,७५†^३; उस् २, १२†^३; शैशि
९१; -†सताम् आमिष्ट २,६,२;
१९; बौध २,५,११; -सति पागृ
२,५,२०; बौपि २,६, ८; हिपि
२३ : २; अत्र १७, १†; मीसू
१,३,३; १२, ४, १८; -†सते
आपश्री २०, १, १७; बौश्री ७,
४ : १९; १५, ३ : ९; ७ : ९;
हिश्री १४,१,१२; -सत्सु काश्री
१,१०,८; २४,६,२३; बौध १,
५,९७; -सन्तम् वाध ६,४४;
ऋप्रा १४,४०.

†असच्-छा (<शा)खा^b- -खाम्
अत्र १०,१०.

असच्-छा (<शा)ख^c- -खम् शंध
५.

असच्छाखा (ख-अ) भिगमन-
-तम् विध ३७, ३०.

असत्-पुत्र^c- -त्राः वगृ ६,१२ : ७.

असत्-प्रतिग्रह- -हः विध ३७,
१२; -हात् वाध २७, ९; विध
५४, २४.

असद्-वामस^c- -सः शंध १२.

असन्-नियम- -मान् मीसू १, ३,
१२.

अ-सत्त्व- -त्वे पा १,४,५७.

अ-सत्त्व-वचन- -नस्य पा २, ३,
३३.

†अ-सत्य- -त्यम् वाध ६, २४; शंध
१६६ : ४३; ६४; वैध १,२, ८^d;

-स्यात् वैध ३, १, १०.

असत्य-भाषण- -णम् विध ४०, १.

असत्य-वाद- -दम् वैध ३, १, १०.

अ-सत्र- -त्रे काश्री १२, ५, १४; द्राश्री
७, १, २३^{१०}.

अ-सत्रो (त्र उ) त्थान- -नः काश्री
२३, ५, ३४.

अ-सदस्य- -स्यान् अत्र १३, २, ७;
३, ८.

असदस्य-सदस्य- -स्यानाम् अप
७०, १२, २.

अ-सदृश- पाग ६, २, १६०; -शः
वाध १५, १२.

अ-सदृशी- -शी अप ४७, १, ४.

अ-सद्यस् (:) काश्री ४, २, ४४; २२,
५, ३०; बौश्री १८, २२ : ९.

अ-सद्यस्-काल^f- -लः आपश्री ७,
६, ३६.

†असन्^b- -स्रः अप ४६, ५, ३; -स्रा
आश्री ३, ३, १; २; शाश्री ५,
१७, ८; ६, १, ६; भाशि ७३.

१असन्- √अस् (क्षेपणे) द्र.

२असन्^h- पाउभो २, २, १८५.

असन्-चक्र- √अस् (क्षेपणे) द्र.

†असनाⁱ- -नाम् या ११, ८.

असनि^h- (>असनिकⁱ- पा.) पाग
४, २, ८०.

असनीय- √अस् (क्षेपणे) द्र.

†असन्ततम्^k या १४, १०.

अ-संत (त >) ता- -ते शाश्री ३,
१६, ९.

अ-संतन्वत्- -न्वन् आश्री ५, ९, १;
८, ३, २; शाश्री ७, १५, २.

१अ-संताप^l- -पे कौसू ३८, १६.

२अ-संताप^b- पम् अत्र १६, ३†.

†असंतापमानाः कौगृ ५, ४, २^m.

अ-संतुण्ण, ण्णा- -ण्णे बौश्री ६, २८ :
३७; वैश्री १४, ९ : १; हिश्री ७,
६, २८; †तैप्रा ४, ११; १३, १४.

अ-संतोषिन्- -षी वैध ३, ७, २.

अ-संत्वरमाण- -णाः आपश्री १२,
२९, १२.

अ-संदधत्- -धत् ऋप्रा ११, ४५.

अ-संदर्शⁱ- -शै आपध १, २, २९;
हिध १, १, ६२.

अ-संदर्शन- -ने आगृ ४, ८, १२.

अ-संदह्य वाश्री १, ५, ४, ४६.

अ-संदिग्ध- -ग्धान् भाशि १२, ८;
ऋप्रा ३, २९.

असंदिग्ध-त्व- -त्वात् पावा १, १,
४९.

†अ-संदित^b- -तः शुप्रा ३, १५०.

अ-संधावमानⁿ- -नाः शाश्री ४, १५,
३ⁿ.

अ-संधि- -धौ पा ६, २, १५४.

अ-संधि-ज^o- -जः ऋप्रा १३, २३.

अ-संधेय, या- -यम् शाश्री १५, २४,
१^o†; -या कौगृ २, ८, ४; शांष्ट
२, १३, ४.

†अ-सन्न^b- -न्नः माश्री २, ३, २, ३०;
४, २६; ५, १, ३९; २, ११; -न्नाः
हिश्री ८, ८, २; -न्नान् माश्री २,
३, ८, २; -न्नानि हिशु २, ६.

अ-संन (त >) ता- -ता हिश्री ४, १,
४०; -ताम् वैश्री १०, ३ : ३.

अ-संनद्ध, द्वा- -द्धम् माश्री १, ७, १,

a) वैप १, ५२८ a द्र.। b) वैप १, परि. च द्र.। c) कस.। d) 'व्याऽग्नि' इति समस्तः इति C.।

e) पाठः ? †असन्ने <> †सन्ने इति पाठे.। f) तस. > बस.। g) सप्र. असद्यस्कालः <> द्वयहः इति पाठे.।

h) अर्थः व्यु. च ?। i) वैप १, ५२८ p; ५२९ b द्र.। j) =देश-विशेष- ?। k) पाठः ?। संगतम् इति

R.N.M.। l) तस. उप. भाप.। m) पाठः ? सप्र. असंतापमानाः <> असंधावमानाः इति पाठे.। n) तस.

उप. <सं/धाव्/शुद्धौ। o) तस. > उस.।

९; -द्धा बौश्री २५, २६ : १६;
 -द्धानाम् वाधूश्री ३, ७९ : ५.
 असंनद्ध-साराथि^१ - थीनाम् वाधूश्री
 ३, ७९ : ४; ५.
 असंनयत् - यतः आश्री १, ३,
 १०; २, १४, ८; शाश्री १, ३, १५;
 काश्री ४, २, ३६; बौश्री १, ५ :
 २०; १६ : २२; २०, १ : ५०;
 २४, २४ : ४; माश्री १, १९,
 १३; २५, ९; २, १८, ९; ९, ६,
 ४; माश्री १, २, १, ३२; वाश्री
 १, १, १, ५७; वैश्री ४, २ : ८;
 ५ : ११; हिश्री १, १, ७४; ४,
 ४१; २१, २, १४; -यताम्
 आम्रिगृ ३, ७, ४ : ६; बौपि २,
 ३, १५; हिपि १२ : १०; -यन्
 शाश्री १, ३, १८.
 असंनिधान - नात् पावा १, ४, १०९;
 मीस् ७, १, १५; -ने आम्रिगृ
 ३, ६, २ : ३; बौपि १, ९ : १२.
 असंनिधि - शौ गौध २, ४७;
 मीस् ३, ९, ४३.
 असंनिपात - तात् काश्री १, ७,
 १४.
 असंनिपातिन् - > ^०ति-कर्मन्^२ -
 -मैणाम् मीस् ११, ४, ५४; -मैसु
 आपश्री २४, १, ४२.
 असंनिपाति-त्व - त्वात् मीस् ९,
 ४, ९; १२, ३, ३०.
 *असंनियोग - ने पावा ३, १, ३.
 *असंनिवेश - शात् पावा १, १, ७३.
 असंनिहित, ता - ता कप्र २, ९,
 २३; -ते पावा ४, ३, १२०; ५,
 २, १३५.
 असंन्युप्त - -त्ते आपश्री ९, १०, १२.

असपत्न, ला^३ - फलः आपश्री ४,
 १०, १; बौश्री २७, १४ : ३^३;
 माश्री ४, १४, ११; माश्री १,
 ४, २, ६; वाश्री १, १, ३, ६; हिश्री
 ६, ४, ४२; या १, १६५; -फलम्
 अप्राय १, ५; २, १^३; अप १,
 ४५, ८५; ४, ५, १३; ६, २, ५;
 १९^३, ५, ९५; ३२, १, १४; ४१,
 ३, २; अत्र १९, १६^३; -तया
 माश्री ६, २, २, १; -फला आपमं
 १, १६, ४^४; ५; अप १८, १, ७;
 -लाः काश्री १७, ७, १५; ११,
 १; बौश्री १०, ४५ : १; वैश्री
 १९, ४ : ९; वैताश्री १४, ११^०;
 शुप्रा ५, ३७.
 असपत्ना-स्पृश- स्पृशः काश्री
 १७, ११, ८.
 असपत्ने(ल-इ)ष्टका^४ - काः वैताश्री
 २९, ६.
 अस-पिण्ड, ण्डा - ण्डान् गोश्री
 ३, ४, ४; -ण्डान् आम्रिगृ १,
 ६, १ : ३; वैश्री ३, २ : १; जैश्री
 १, २० : २; -ण्डे आश्री ४, ४,
 १९; २२; विध २२, ४६; गौध
 १४, १९; -ण्डेषु बौध १, ५,
 ११३.
 असपिण्ड-शव^५ - वस्य वैश्री ७, ५ :
 ८.
 ?असपिण्डा(ण्ड-अ)न्योन्य-स्पर्शन-
 -नम् आम्रिगृ ३, १०, ३ : ३.
 असप्त-विध - घस्य बौश्री ५ : १६.
 असप्त-शफ^६ - फः हिश्री ४, ३, ११.
 अस-ब्रह्मचारिन् - रिणि पाश्री २,
 ११, ९.
 असभ्य-भाषण - णात् या ५, २.

†अ-सम^७ - मः भाशि ९१; -माः यत्
 १, ९; शैशि ५६.
 अ-समक्ष - क्षम् कप्र ३, १, १^१.
 अ-समग्र-दान - ने विध ६, २६.
 अ-समन्वानीय बौश्री २१, १५ :
 ३२; २५, ११ : १८.
 अ-समन्वारब्ध - ष्ठेषु आपश्री १३,
 ६, १०.
 अ-समय^८ - येन आपध १, १३, १०;
 हिध १, ४, २४.
 अ-समर्थ, र्था - र्थः विध २७, ९;
 १०; -र्था वैश्री २०, ९ : ६;
 -र्थानाम् मीस् ४, ३, १०; -र्थेन
 पावा ४, १, ८२.
 असमर्थ-त्व - त्वात् पावा २, १, १^३;
 २, १४.
 असमर्थ-समारु^९ - सः पावा २, १,
 ३५.
 असमवदाय^{१०} माश्री ८, १९, १.
 असमवाय - यम् दाश्री ३, ३, १६;
 -यात् मीस् ४, ३, २९; ५, १
 १२.
 असमवायिन् - > ^०यि-त्व - त्वात्
 मीस् ६, २, २२.
 अ-सम-विभाग - -गे अप्रा १
 २, ३.
 अ-समचेत - ताः गौध १३, ६.
 अ-समस्त - स्तेन बौश्री ३, २८ :
 २५.
 असमस्त-वत् पावा १, ७, ७३.
 असमाति^{११} - तिः ऋश्री २, १०, ५६;
 वृदे ७, ८५; ८७; -तिम् ऋश्री
 २, १०, ६०; अत्रा ३, ४, १.
 असमान, ना - फलः बौश्री ६,
 २८ : १३; १४; माश्री १, ८,

a) विप. बस.। b) कस.। c) वैप १, परि. च द्र.। d) पाभे. वैप १ परि. असपत्नः ऋ १०, १७४, ४ टि. द्र.। e) सपत्नाः इति पाठः ? यनि. शोधः (तु. सप्र. शौ १९, १४, १; C. च)। f) तस. उप. =शुश्रूषा-। g) तस. उप. <सम्-भव/दो [अवखण्डने]।

२,३; वैश्रौ १४, ७ : ११; -नम् शंघ ३४८; या १४, ३४; ३४; ३४; ३४; -नाभिः या १४, ३४; -नायाम् गौध ४, २७; -ने शुभा ४, १७४. असमान-कर्तृक- -कात् पावा ३, १, ७. असमान-कारण- -गौ ऋप्रा ११, ४७. असमान-ग्राम- -मः गौध ५, ४१. असमान-प्रवर, रा- -राम् माय १, ७, ८; -रैः बौश्रौ २ : ३; वायु १०, २; गौध ४, २. अ-समान-ऋषि-गोत्र-जा- (त>)ता ^a - -ताम् वैश्रु ३, २ : १. अ-समानयन- -नम् काश्रौ ५, ८, ३६. अ-समान-विधान ^b - -नम् मीस् ३, ६, ३६; -नाः मीस् ३, ८, ८. अ-समान-सं(ख्या>)ख्य ^b - -ख्यम् निस् ३, ९ : ७. अ-समाना(न-अ)ङ्ग-प्रतिषेधा- (ध-अ)र्थ- -र्थम् पावा ६, १, १०६. अ-समाना(न-अ)धिकरण ^b - -णेषु पावा २, २, २४. असमानाधिकरणा(ण-अ)र्थ- -र्थम् पावा ६, ३, ३५. अ-समाना(न-आ)र्ष-गोत्र- (ज>)जा ^a - -जाम् शंघ ७०. अ-समाना(न-आ)र्षेय ^b - -यान् आमिष्ट ३, ३, १ : ७; शंघ ६९. अ-समापत्ति- -तौ आपध २, २७, २०; हिध २, ५, २३८. अ-समापयिष्यत्- -ष्यन् निस् ५, ६ : ११; ९, ५ : १२. अ-समाप्त, सा- -सम् मीस् ३, १, १९; -सयोः काश्रौ २४, ६, २५; -सानाम् बौपि २, ७, १६; -साम् ऋप्रा १३, ३२; -सासु लाश्रौ ६, २, १८; -से बौश्रौ २०, ४ : ४; शांघ ५, ८, ५; आमिष्ट ३, ९, ३ : १८; अप्राय २, ५ ^३ ; ६ ^३ ; अप २१, ७, ६ ^३ ; ३७, ५, १; १९, १; ऋप्रा १५, ३१; १८, ५८. असमाप्त-त्व- -त्वात् मीस् ८, ३, ३७. असमाप्त-शरीर- -राणाम् बौपि ३, ६, २. अ-समाप्ति- -तौ काश्रौ १, ४, ४. असमाप्ति-वचन- -नात् पावा ५, ३, ६७. अ-समाप्य पायु २, ५, ३३; ३४. अ-समाज्ञात, ता- -तासु आश्रौ २, १४, १४; -तेषु आश्रौ ९, १०, ६. अ-समारूढ- -ढाः अप्राय ४, ४. अ-समारोह्य काश्रौ २५, ३, ९. अ-समालम्भन- -नम् गोयु २, ७, २१. अ-समावृत्त- -त्तः आपध २, ६, १२; हिध २, २, १२. अ-समावेश- -शः पावा १, ४, १; -शस्य पावा ३, ४, ६७; ५, २, ९७. अ-समास- -सः ऋप्रा १५, १४; पावा ६, ३, १; -सम् लाश्रौ १०, १२, १७; -से अप्रा १, ३, १३; ३, ३, १९; २०; शौच २, ६३; पा ५, १, २०; ७, १, ७१; ८, ४, १४; पावा १, २, ६४; २, १, ३५; २, २९; ८, १, ५. असमास-ग्रहण- -णम् पावा ५, १, २०. असमास निर्देश- -शात् पावा ७, १, ३. असमासा(स-अ)र्थ- -र्थम् पावा २, १, ४. अ-समासा(स-अ)ङ्ग-योग ^c - -ने ऋप्रा १, ९९. अ-समासा(स-अ)न्त-प्रतिषेधा (ध-अ)र्थ- -र्थम् पावा ८, ४, ११. अ-समित्क ^d - -त्के बौश्रौ २४, ८ : १७; १८. अ-समिद्ध- -द्धे कप्र १, ९, १३. अ-समिध्य विध २८, ५२. अ-समिन्धन- -ने कायु १, ३२; बौध १, २, ५७ ^१ . अ-समिन्धान- -नः वैश्रौ २, १० : १५. अ-समीक्ष्य अप ७०, ११, ५. अ-समुदित- -तम् बौश्रौ २४, २८ : ११; २६, १ : ९; -ते बौश्रौ १५, ६ : २३; ९ : ११; १८, ५ : ७; ६ : ९; २२ : ८; १९, ५ : ३८; २०, १९ : ९; १०; २५, ३ : १९ ^१ . अ-समुदेत- -त्तः आपध २, ७, १७; हिध २, २, ३६. अ-समुपहृय द्राश्रौ ६, ३, ३०; लाश्रौ २, ११, २३. अ-समूढ- -ढम् बौध १, ५, ५९. अ-समूह- -हः पावा ४, २, ४९. अ-समुद्धि- -द्धिः बौश्रौ २, ५ : ५. अ-समेत्य भायु २, १ : १७; आपध २, ११, ५; हिध २, ४, २१. अ-संपद्- -पत् भायु २, ३१ : १५. अ-संपा(त>)ता ^d - -ताः कौस् ३२, १६. अ-संपूर्ण- -र्णे निस् १, ७ : ३४. अ-संपृक्त-पारिणि ^b - -रिणिः कप्र २, १, १२ ^० .
--

a) तस.>कस.>दस.>उस.। b) तस.>बस.। c) तस.>षस.>तृस.। d) विप.। बस.।

e) *रूपपा° इति मूको.।

†अ-संपृञ्चान- नौ काश्रौ ६, ४, ३;
आपश्रौ ६, २६, १; ११, १९, ८;
बौश्रौ ४, ६ : १२; ७, ९ : १९;
माश्रौ २, ३, ६, १७; हिश्रौ ७, ८,
४३.

अ-संप्रक्षाय्य* बौश्रौ १४, १९ : ३१†;
वैश्रौ २, ११ : ७; हिश्रौ ३, ८,
८.

अ-संप्रजानान- नस्य बौश्रौ २४,
२८ : ३.

अ-संप्रज्ञात- > त-बन्धु^०- नश्रुः
आपश्रौ २४, १०, १७^०; -न्धोः
हिश्रौ २, १, ५७^०.

अ-संप्रति- ति कौश्रु ८५, २१; ऋत
५, १, ६^०; पा २, १, ६; पाग २,
१, १७.

अ-संप्रत्यय- यः पावा १, १, १; २३;
४६; ७१; २, १; ७, १, ९०; २,
३७.

‡अ-संप्रमाणम्^० शांठ ६, २, ६.

अ-संप्रसारण- गम् पावा १, २, १;
-गात् पावा ६, १, १०६.

अ-संप्राप्त-वचन- नात् पावा २, ३,
१२.

अ-संप्राप्ति- स्तेः निस् १०, ३ : ४१.

‡असंप्राहत्य वाश्रौ ३, ४, १, ४५.

अ-संप्रेषित- तः शाश्रौ ७, १५, २;
१०, १, ११; १६, १७, ४; आपश्रौ
१३, १, ६.

अ-संबद्ध- ङम् शंघ १२.

असंबद्ध-प्रलाप- ये विध ८, १८.

अ-संबन्ध- न्धः पावा २, १, १;
मीस् ३, १, २१; ६, १, २६;
६, १५; ९, २, ८; -न्धात् मीस्

३, १, २५; २, २२; ४, ४, ११;
५, १, ३२; ३, ३३; १०, ८,
५८; -न्धान्^१ बौश्रु २, ११, ५;
शंघ ६९.

†अ-संबाध^०- धम् शांठ ६, २, ६६;
कौस् १३७, १६^६; अत्र १२,
१^६; -धे अत्र १८, १; दंवि
२, ५.

अ-संबुद्धि- द्वौ पा ६, ४, ८; ७, १,
९२.

अ-संभक्त^०- क्ताः वैध १, १०, ३;
११, १०.

अ-संभव- वात् काश्रौ १, ५, १७;
६, १७; २०; १०, १३; ५, ३, ३०;
७, २, २१; ९, १२, ६; १५, ४,
२२; १७, ११, ६; २५, १३, ३६;
हिश्रौ १, १, ४९; पाठ २, १७, ५;
पावा १, १, ६८; ४, १; २; मीस्
६, ७, ३१; ३६; ९, ४, ५; -वे
शांठ ६, ३, ३; काठ १२, ४; अप
२३, ११, २; गौध २८, ५१; बुदे
७, १७; मीस् ३, ८, ३६.

असंभवे (व-ई)प्सु^१- प्सुः आपठ
२३, ३.

अ-संभवत्- वत्सु लाश्रौ ६, ६, ५;
-वन् मीस् ६, २, २६.

अ-संभाषा- षा पाठ २, ८, ३.

अ-संभाष्य आपध १, १४, ३०; हिध
१, ४, ५९.

अ-संभाष्य- ष्यः शंघ ३९०.

अ-संभिन्दत्- न्दन् काश्रौ १, ९, ६;
आपश्रौ २, १८, १०; ३, १,
७†; ७, २६, ११; काठश्रौ ७०;
बौश्रौ १, १८ : ४†; ६, २६ :

१३; भाश्रौ २, १७, १०; ३, १-
१†; माश्रौ १, ८, ६, ६; हिश्रौ
२, ३, ८†; ४, ५, ३७; -इन्तः
आपश्रौ १३, १७, ५; २०, १९,
९†; काठश्रौ ९४; १५८; वैश्रौ
१६, २१ : ३; हिश्रौ ९, ४, ५१;
१४, ४, ३३.

अ-संभिन्न, ज्ञा- ङम् आपश्रौ १६,
१९, ९; -ज्ञाः आपश्रौ ११, ११,
५; -ज्ञान् वैश्रौ १४, ७ : ६;
-ज्ञे आपश्रौ ८, ५, १०; काठश्रौ
६३; बौश्रौ ५, ५ : ११; वाश्रौ
१, ७, २, ७; वैश्रौ ८, ९ : ४;
हिश्रौ ५, २, १०.

अ-संभृत- ते आपश्रौ १३, १, ११.

अ-संभ्रम- मे अप ७०^०, ७, ३.

अ-संमति- तौ पा ३, १, १२८.

अ-संमार्गम् वाश्रौ १, ३, ३, ६.

अ-संमित- तम् शाश्रौ १३, ११, ६.

असंमित-स्तोत्र^०- त्रः क्षुस् १, ११ :
१४.

अ-संमित्तिन्^१- ती बौश्रु ३, ३, २८.

अ-संमृद्त्- द्रन् कौस् ३६, २४.

†१अ-संमृष्ट^०- ष्टः^१ आपश्रौ ११,
१४, १०; बौश्रौ ६, २९ : १८;
वैश्रौ १४, १३ : ५; हिश्रौ १०,
३, ४२; जैश्रौ १३ : ८; द्राश्रौ ४,
२, ३; लाश्रौ २, २, १२.

२अ-संमृष्ट, ष्टा^०- ष्टः आपश्रौ ८, ६,
२३†; बौश्रौ ५, ७ : ५†; भाश्रौ
८, ८, ३; -ष्टानि भाश्रौ २, ४, ९;
-ष्टाम् हिश्रौ १, ७, ११; -ष्टे
काश्रौ ५, ५, ५; वाश्रौ १, ७, २,
२७; हिश्रौ ५, २, ४६; -ष्टैः

- a) वैप १ द्र. । सप्र. आपश्रौ ६, २८, ८ संप्रक्षाय्य इति पाभे. । b) विप. । बस. । c) सप्र. बौश्रौ २४,
२८ : ५ अप्रज्ञानबन्धुः इति पाभे. । d) अर्थः ? । e) पाठः ? असंप्रमाणम् इति शोघः विमृश्यः । f) उप. संबन्धिन-
g) पाभे. वैप १ परि. असंबाधम् शौ १२, १, २ टि. द्र. । h) नाप. । तस. । i) तस. पू. = अमैथुन- । j) तस. उप.
<संमिति- = त्र-विशेष- । k) वैप १ द्र. । l) पाभे. वैप १ परि. असंमृष्टः टि. द्र. । m) तस. उप. <सं/मृज् ।

आपश्रौ २,४,९.
अ-संश्लेत्^a आपश्रौ ३,१९,७; भाश्रौ ३,१७,८; वैश्रौ ७,१ : ६; हिश्रौ २,८,२.
अ-सरण- -णम् काश्रौ १८,६,२४.
अ-सरूप- -पः पा ३,१,९४; -पम् अप ७२,६,४; -पस्य पावा ३,१,९४^b; -पाणाम् पावा १, २, ६८.
असरूप-त्व- -त्वात् पावा १, २, ६४.
असरूप-निवृत्त्य (त्ति-अ)र्थ- -र्थम् पावा ३,२,१५०.
अ-सर्ग- (> आसर्गिक- पा.) पाग ५,१,१०१.
अ-सर्व- -र्थम् आपश्रौ १२, १३, ९; १६,११^c; अप्राय २,८^d; -वाणि आपश्रौ १, ६, ७; -वान् हिश्रौ ८,७,६६.
अ-सर्व-द्रव्य-गति^b -तिः पावा १,२,६४; ८,१,४.
अ-सर्व-नामन्- -न्नः शौच २,४४.
अ-सर्वनामस्थान- -नम् पा ६, १, १६६.
अ-सर्व-पृष्ठ^e -ष्ठे शाश्रौ १२,७,३.
अ-सर्व-भक्ष^e -क्षाणाम् जैश्रौका १४९; -क्षात् काश्रौ ९, १२,७; -क्षेषु जैश्रौ १४ : २५.
अ-सर्व-लि(ङ्ग>)ङ्गा^e -ङ्गा पावा १,४,१.
अ-सर्व-विभक्ति^e -क्तिः पा १, १,३८; -क्तौ पावा १,१,३८.
अ-सर्व-विषय^e -त्व- -त्वात् मीस् ८,३,१७; ९,३,३२.

अ-सर्व-वीर^d -रः अअ ९,२^f.
अ-सर्व-शस्(ः) ऋप्रा ११, २१.
अ-सर्व-शेष-त्व- -त्वात् मीस् २,३,४; ६,८,२३.
अ-सर्व-होम^e -मः काश्रौ ६,१०,२६.
असवनच्छन्दोन्ते^e - निस्र ७,३ : ३७.
अ-स-वर्ण^f -र्णम् तैप्रा २१, ७; -र्णे पा ६, १,१२७; ४,७८.
अ-स-व(र्ण>)णी^g -> णुत्र- -त्रः वाध १५,१२.
असवर्णा-वेदन^h -ने विध २४,६.
अ-स-इच्चत्ⁱ -इच्चतः आपश्रौ १६, १८, ७; वैश्रौ १८, १६ : ४; हिश्रौ ११, ६, २९; अप्रा ३, ४, १.
अ-स-इच्च(त्>)न्तीⁱ -न्ती निघ ४,२; या ५,२७.
अ-स-स्थान^e -ने शुप्रा ४,१२२; १२८.
असस्थान-परⁱ -रः तैप्रा १४,१३.
अ-सह-वासिन्- -सो आमिगृ २, ७,१० : १५.
अ-स(ह>)हा^k -हा पागृ ३, १३, ५^f.
अ-सहायⁱ -यः वैध ३, ६, ६; -यस्य पावा ५,३,५२; -ये पा ५,३,५२.
अ-सहोदर- -रान् कप्र १,६,४.
अ-सहाⁱ -> ष्वासाह- -साहम् सु ५,१; २८,२.
अ-सांवत्सरⁱ -रः अप्रा २,१,५.
अ-साहित- -तः तैप्रा ४, ६; -तम् तैप्रा २०,५.

अ-साक्षात्-कृत-धर्मन्^m -र्मभ्यः या १,२०.
अ-साक्षिकⁱ -कम् विध ७,२; ५.
अ-साक्षिन्- -क्षिणः विध ८, १; -क्षी विध ८,५.
अ-साक्षि-प्रणिहित- -ने शंध २६४.
अ-सादन- -नम् काश्रौ ९, ४, २७; १६,७,२०.
अ-सादयित्वा बौश्रौ ८, १३ : ५; १४ : २३.
अ-सादय्य- -इये पा २,१,७.
अ-सादयस्क- -स्कैः निस्र ६, ९ : १८; -स्कौ निस्र ६,९ : १७.
अ-साधक- -कम् मीस् ६,१,२.
अ-साधु- -धूनाम् आमिगृ २, ६, २ : ६; बौध २,५,३.
अ-साध्य- -ध्यानि आज्यो ११,८.
अ-साध्वी- -ध्वीम् वैगृ ६,२ : ९.
अ-सानाद्य-वत् काश्रौ २५, ५, ८.
अ-सानिध्य- -ध्ये कप्र ३, ९, ९; अप्र २३, ११, ३.
अ-सामञ्जस्य- -स्यम् मीस् ७, २, १२.
अ-सामन्ⁱ -म अप्राय ३,८.
अ-सामर्थ्य- -र्थ्यात् वाध १९, ६; मीस् ६, ७, ३४; -र्थ्येषु अप्रा १, १, १३.
अ-सामा(न्य>)न्या- -न्याभ्यः निस्र २, ११ : ७; -न्यासु छुस् ३, २ : २०.
अ-सामिⁱ -मि निघ ४,३; या ६, २३^g.
अ-सामिधेनीकⁱ -कः वागृ १, ४; -काः काश्रौ ६, १०, २१; कौगृ

a) तस. उप. <सं*श्लेत् [चर्धणे] । b) तस. > कस. > षस. । c) विप. । बस. > षस. ।

d) वैप १ द्र. । e) तस. > षस. । f) तस. > कस. । उप. = अक्षर- । g) तस. > बस. । उप. = जाति- ।

h) षस. उप. < √ विद् [लाभे] । i) वैप १, परि. च द्र. । j) विप. । बस. । k) तस. उप. < कर्तेरि √ सह ।

l) विप. । बस. उप. = ज्योतिर्-विद्- । m) तस. > बस. ।

१,६,५; शांठ १,१०,५.
अ-सार- -रे विध २०,४०.
असारसि^a वैश्रौ १८,१७ : १०[†].
अ-सारस्वत- -तेषु काश्रौ १३, ४,
 ४.
अ-सार्वभौम- -मः आपश्रौ २०, १,
 १; शंभ २५३.
असि^b पाउ ४, १४०[‡]; -सयः
 वाधूश्रौ ३, ७६ : २८; -सिः
 काश्रौ १५, ३, १७; आपश्रौ १८,
 १०, २३; हिश्रौ १३, ४, १०;
 अप २३, २, १; शुभ्र १, ३९४;
 पावा १,४,१[‡]; -सिना काश्रौ ६,
 ८,११; काठश्रौ ६२; वाधूश्रौ ४,
 ५९^३ : ७; गोगृ ३, ६, ५; कौसू
 २३, १४; अप २३, ४, ४; ३३,
 १,८; ६८, ५, ५; आपध १,१६,
 १६; हिध १, ५, १५; -सिम्
 आश्रौ ८, १४, १२; शांश्रौ १५,
 २१, १; काश्रौ ६,४,११; आपश्रौ
 ७, ८,३; वाधूश्रौ ३, ९४ : १७;
 १९; अप ४०, ३, २; -सीनाम्
 वाधूश्रौ ३, ७६ : ३२.
असि-नृण- -णयोः पावा १,४,२३.
असि-धारा-व्रत- -तम् वैध १, ५,
 ५.
असि-पत्र-वन^c -नम् अप ९,४,२;
 विध ४३,२१; -नानि शंभ ३७४.
असि-पथ- -थान् काश्रौ २०, ७, १;
 आपश्रौ २०, १८, ७; ८; बौश्रौ
 १५,३० : १४; वाधूश्रौ ३,९४ :

१४; वाश्रौ ३, ४, ४, १७; हिश्रौ
 १४,४,१६; १७.
असि-पाणि^d -णिः कागृ २४, १५;
 मागृ १,९,१९.
असि-फलक- -केन वाधूश्रौ ३,९४ :
 १४.
असि-बद्ध^e -द्धाः शांश्रौ १४, २२,
 २०.
असि-विष्टर-पाणि^f -णिः वागृ
 ११,२०.
असि-शूल^g -लैः बौश्रौ १७, ४६ :
 ३.
असि-हृत्थ^h - (> भासिहात्थ- पा.)
 पाग ७,३,२०.
अस्य(सि-अ)ग्र- -ग्रेण कौगृ १, ८,
 १४; शांठ १,१३,१.
अस्य(सि-अ)भिधान- -नम् मीसू
 ९,४,२२.
अस्या(सि-आ)कृतिⁱ -तिः काश्रौ
 १,३,४०.
अस्यु(सि-उ)द्यत^j -पाग २,२,३७.
अस्यु(सि-उ)ल्लुक-किष्कुरु- -रून्
 कौसू ३८,३.
अ-सिक्त- -क्तम् बौश्रौ २०,२३ : २८.
असिक्त-रतस्^k -तसैम् वाधूश्रौ ३,
 ९४ : २; ६; १०; -तसौ वैश्रौ
 १,६ : ९; हिश्रौ ६,५,४.
असिक्ती^l -पावा ४, १, ३९; -क्ती
 अप ४८,७४; निध १,७; या ९,
 २६[‡]; -क्तीम् अग्र १, २३;
 -कन्या या ९, २६; -कन्याम्

अग्र २,४, १७; ऋप्रा १७, ४३;
 उसू ३,१.
असित^m -ताय आपश्रौ २०,
 १२, ४[†].
असित,ताⁿ -तः आपमं २,१७,
 १४[†]; कौसू ४०, १६[†]; अग्र ६,
 ७२[†]; विध ५८, २; -तम्
 आपश्रौ १६, ११, १२[†]; बौश्रौ
 १४, ७ : २४[†]; २३, १८ : ३६;
 २६, ७ : २०; वाधूश्रौ ४,
 १०२ : १४; हिश्रौ ११, ४,
 १२[†]; अशां ७,४; अग्र ३,२६[†];
 या ९, २६; -कृतस्य अग्र ५,
 १३; -ता या ९, २६; -कृताय
 अग्र ६, ५६; -कृतायाम् मागृ
 २,१,१०[†]; -ते अप ६३,४,५;
 बौध ४,५, १७; विध ७८, ५२;
 -तेषु वैश्रौ १९,५ : १९[†]; -तौ
 या १२,२[†].
असित-केतु- -त्वोः वैगृ ४,१४ : ६.
असित-जानु^o -नुः आपश्रौ ५,
 १०,१०.
अमित-जु,जू^p -जूवे भाशि ६०[†];
 -जूः बौश्रौ १८, २९ : १०;
 -जूः कौसू १३७,३०[†].
असित-पलित- -तयोः पावा ४,१,
 ३९.
अमित-मृग^q -गाः माग्र २,११८१.
असित-वर्ण^r -र्णाःⁿ आपश्रौ १९,
 २७, १; बौश्रौ १३, ३९ : ८;
 हिश्रौ २२,६,१४.

a) पाठः ? असावत्रि (असौ, असि) इति शोधः (तु. तै ५, २, ७, ३)।
 b) वैप १, परि. च द्र.।
 c) =नरक-विशेष-। d) विप.। बस.। e) विप.। द्वस. > बस.। f) षम. यद्वा कस.।
 g) उर. भाव. °स्थ-हृत्थ-, °स्थ-हृत्या- इति चापि पागम. पाभे.। h) भारुडा., पासि. [पदे] ? अरमुगत-
 इति। i) °ताम् इति पाठः ? यनि. शोधः। j) पाभे. वैप १ परि. असिक्न्याम् शौ १२,
 २, २० टि. द्र.। k) अर्थः व्यु. च ?। l) °तजूः इति पाठः ? यनि. शोधः
 (तु. सपा. शौ १२, १, २१)। m) = ऋषि-विशेष-। व्यु. ?। n) पाभे. वैप १,
 ५३२ k द्र.।

असित-वाल^a- -लेन कौस् ४०, १७.
 असित-शीर्ष- -र्वम् द्विश्रौ ९, ८,
 ३१.
 असित-स्कन्ध- -न्धम् कौस् ४०,
 १७.
 अक्षिता(त-अक्ष >)क्षी^b- -०क्षि
 विध ९९, ६.
 ३ असित^c- -तः ऋअ २, ९, ५; बृदे;
 -तस्य भाग २, ६ : १५; चाअ
 १६ : २७.
 आसित^d- -०त आश्रौ १२, १४,
 ७^३; ८; आपश्रौ २४, १०, १; २;
 बौश्रौ; -तम् क्षुस् ३, २ : १६^०.
 असित-वत् आश्रौ २४, १०, १;
 २; बौश्रौप्र.
 ४ असित^e- -तः आश्रौ १०, ७, ७;
 शाश्रौ १६, २, १९.
 असिताल-का(ण्ड >)ण्डा^f- -ण्डया
 कौस् ३५, २८.
 असितृ- √ अम् (क्षिपणे) द.
 असिद^g- -दः आपश्रौ १, ३, १; -दम्
 आपश्रौ १, ३, २; ३; १३; बौश्रौ
 १, २ : १; २०, २ : १६; १८;
 भाश्रौ १, ३, ५; वाश्रौ १, २, १,
 १२; वैश्रौ ३, ३ : ९; ४ : ६;
 द्विश्रौ १, २, २२; ३२; -दस्य
 बौश्रौ २०, २ : १५; -देन बौश्रौ
 १, २ : १०.
 असिदा(द-आ)दान^h-
 प्रभृति- -तीन् बौश्रौ २१, १३ :
 १; २२; १४ : ९; २५ : ५.
 असिद्ध- -द्धः पा ६, १, ८६; -द्धम्

पा, पावा ८, २, १; -द्धस्य विध
 २३, ३५; -द्धे पावा १, १, १२;
 ५८; २, ४, ५४; ८, २, १; -द्धेन
 शंघ १५०.
 असिद्ध-स्व- -स्वम् पावा १, १, ५७;
 ६, १, ८५; -स्वात् पावा १, १,
 १२; ६, ४, २२; ८९; १०४; १२०.
 अभिद्ध-वचन- -नम् पावा ६, १,
 ८५; -नात् पावा १, १, ५७^३;
 ६, १, ८५^३; -ने पावा ६, ४, २२;
 ८, २, १.
 अभिद्ध-वत् पा ६, ४, २२.
 असिद्ध-विज्ञान- -नम् पावा ८,
 २, १.
 असिद्धविज्ञाना(न-अ)र्थ- -र्थम्
 पावा ८, २, १.
 असिद्ध-विपर्यास- -सः पावा ३, ३,
 १३३.
 अ-सिद्धो(द्ध-उ)पायⁱ- -यानि निस्
 १, १२ : १०.
 अ-सिद्धि- -द्धिः अप ३६, २, ६;
 गौघ २१, ५; मीस् १२, १, १५.
 असिद्धि-द- -दम् अप ३०^३, १, ६.
 असिद्धि-दर्शिन- -शीं निस् २, ५ :
 २४.
 असिद्धि-विपर्यय- -यः ऋप्रा ११,
 ६७.
 अ-सिध्यत्- -ध्यतः ऋप्रा ११, ६७.
 असिनास^j- > आसिनासि- (>
 आसिनासायन- पा.) पाग २,
 ४, ६१.
 असिन्व(त् >)ती- -ती निघ ४,

३; या ६, ४०.
 असिपक्^k अप ४८, ११६.
 असिबन्धक^l- > आसिबन्धकि-
 (> आसिबन्धकायन- पा.)
 पाग २, ४, ६१.
 असिल^m- -लम् माश्रौ १, १, १,
 २३.
 असिष्टⁿ सु ५, ५.
 असीय^o या १४, ३५^२.
 असीया^p शाश्रौ ७, ९, १.
 असु^q- पाउ १, १०; -सुवे आपश्रौ
 १४, २५, ११; १९, १३, ९;
 बौश्रौ १९, ५ : ६; वैश्रौ २१,
 ११ : ६; द्विश्रौ १५, ६, २९;
 २३, २, ४२; कौस् ४७, १६;
 अप ३७, १, १०; -सुः शाश्रौ
 ६, १, ६; वाधुश्रौ ४, १९ : १२-
 १७; १९^२; २१-२७; १०१ : ४;
 ५; १०८ : १३; वाश्रौ ३, २,
 ६, ४२; माग २, ७, ५१^३; अप
 ४८, ८४; या ३, ८; १०, ३४;
 बृदे ७, ९८; निघ ३, ९; -सुम्
 आश्रौ ३, ३, १; शाश्रौ ५, १७,
 ३; बौश्रौ २, ८ : २९; बौपि २,
 ९, १२^३; हिपि १८ : ११; बृदे
 ७, ८९; ९९; १०१; या ११,
 १८०^p; -सुन् बृदे २, ५४; या
 १०, ३९; -सुनि या १४, २५^३१५;
 -सुसो कौस् ४७, १६; अप
 ३७, १, १०.
 असु-त्प^r- -त्पः या १४, १०;
 -त्पौ आश्रौ ६, १०, २०; हिपि

a) षस. पूष. = हस्तिन्- इति दारिलः, = कृष्णमृग- इति केशवः। b) विप.। बस.। ङी- इति पाठान्तरम्।
 c) = ऋषि-विशेष-। व्यु. ?। d) व्यप.। अपत्यायर्थे अण् प्र.। e) = साम-विशेष-। f) = असुर-विशेष-। व्यु. ?। g)
 विप. बस.। पूष. = वृक्ष-विशेष-। h) = दात्र-। व्यु. ?। i) उस. उप. करणे <आ/दा [दाने]। j) विप.। तस. >
 बस.। k) पाठः ? °कः इति मूको.। l) पाठः ? आसिष्ट (< √ आसि) इति शोधः विमृश्यः। m) अर्थतः अशीय
 (< √ अश [व्यासौ]) इति शोधः (तु. तैत्रा ३, ११, ५, ३^१)। n) स्वरूपम् ? (तु. सप्र. तै ५, ६, ८, ६ काठ ४०, ६)। o) वैप
 १, परि. च द्र.। p) पाभे. वैप १ परि. ऋ १०, १५, १ द्र.। q) एकतरत्र पाठः ? शोधार्थं ? असुनवन्ति टि. द्र.।

१८ : १०.

असु-नीति^a - ति: अण ४८, १३७;
वृदे १, १२४^b; २, ५४^b; ८, १२६;
शुभ्र ३, १८२^b; निघ ५, ४; या
१०, ३९०^c; ४२; -^कतिम् आमिगृ
३, ६, १ : ५; बौपि १, ८ : ४;
ऋअ २, १०, ५९^d; -^कन्ते शाश्रौ
१६, १३, १४; या १०, ४०;
-ते: वृदे ७, ९२^b.

^कअसु-नीथ^c - थाय^d आमिगृ ३, ५,
३ : ११; बौपि १, ३ : ९.

^कअसु-म्-गम^e - मा: बौश्रौ २,
९ : ११; भाग २, ११ : ७.

असु-समीरित- -ता: या ६, १५.

२अ-सु^f - ^कसो: या ३, ८^b.

अ-सुकर- -रम् अण ५८^३, १, ४.

अ-सुख- -खम् या २, १४; -खे
ऋत ३, ८, ५.

अ-सुत^g - -त्स्य शंघ ४२९; ४६१.

अ-सुत्या- -त्या बौश्रौ २८, १२ :
१९.

१असुनवन्ति^h या १४, २५^२.

^कअ-सुन्वत् - -न्वत: या ६, २२;
-न्वन्तम् काश्रौ १७, १, २३;
बौश्रौ १०, २२ : १६; माश्रौ
६, १, ५, १६; वाश्रौ २, १, ४,
२३; शुभ्र २, ११९.

१असुप्तव्यम्^k अप ६८, १, ५४.

अ-सुसमाप्त- -प्त: या ६, ९; २८;
-प्तम् या ६, २३; -प्तान् या

६, ९.

१असुर^a - पाठ १, ४२; पाग ५, १, २;
३, ११७^१; ४, ३८^m; -^र
बौश्रौ ३, २२, १४^क; -^कर:
आश्रौ ३, ७, १५^m; ४, १०, ५^m;
६, १, २^m; ७, ११, ४०; ८, १, ४;
आपश्रौ ५, १४, १; वैश्रौ १८,
५ : ९; बौगृ २, २, ४; मागृ २,
१५, ६; अप्राय ३, १; अण ४८,
१००^०; शंघ ११६ : १६^g;
बोध २, ६, ३०; निघ १, १०^०;
या २, १६; ६, १८; भाशि
१२; -^रम् वाधूश्रौ ३, १७ :
२३; अण १, १०; -^रस्य आश्रौ
४.६, ३^क; अप ५३, १, १; पा ४,
४, १२३; -^०रा ऋप्रा ४, ९१;
-^{रा}: आश्रौ ^क२, ६, २; ९; १०,
७, ७; शाश्रौ; या ३, ८^३; २०^क;
-^{रा}णाम् शाश्रौ १४, २७, १;
बौश्रौ; पागृ ३, ३, ५^क; आमिगृ
३, २, ६ : ७^क; चाअ ३० : १४^b;
या ३, ८^२; -^{रान्} शाश्रौ १०,
१४, ८×४; आपश्रौ; या ३,
८^क; -^{रेण} वृदे ७, ५५; -^{रेभ्य}:
बौश्रौ १८, ४६ : १८; ४७ : ६^क;
वाधूश्रौ ३, १७ : ९; चाअ १४:
३; -^{रेषु} वाधूश्रौ ३, १७ : १४;
१९; अप ४१, ४, ३; -^{रै}: बौश्रौ
१८, २८ : २^क; २८, ११ : १३;
१४; अप्राय ६, १०; अप ४, १,

२१; ३३, १, ३; २, १; ऋअ २,
१०, १०८; वृदे ६, ८२; १५०;
या ११, २५.

असुरी- -री ऋअ २, १०,
४७; वृदे ७, ४९.

आसुर^a - पा ५, ३, ११७; ४, ३८;
-^र: वाधूश्रौ ४, ८८ : १; आगृ
१, ६, ६; वैगृ ३, १ : २; आपघ
२, १२, १; बोध १, ११, ७; विध
२४, १८; २४; गौघ ४, ११;
हिध २, ४, ३६; -^रम् शाश्रौ
१५, १५, ११; काश्रौ १, १०, १४;
हिश्रौ २१, १, १०; कौगृ १, ६,
७; शांगृ १, १०, ९; वैगृ ३, १ :
९; कप्र २, ८, १०; ३, ८, ४;
वृदे ८, ३१; शुअ १, १५७;
अण १, १०; -^रस्य वृदे ६,
१६१; ८, ३४; -^{रा}: ^ककौसृ
१०४, २; १०५, १; -^{रा}णि ऋप्रा
१६, ४; -^{रान्} शाश्रौ १५, १५,
१३^क; द्राश्रौ १३, ४, ८^क; लाश्रौ
५, ४, १५^क; वैताश्रौ ३०, १२^क;
वैगृ ६, १२ : १०; -^{रान्} अण
२३, १३, १; -^{रे} आपश्रौ १९,
२, १९^क; शुअ १, ८२; -^{रेण}
वैगृ ६, १२ : ७; कप्र २, ८, ९.

आसुरी- पा ४, ४, १२४;
-^०रि अप ३५, १, १; -^{री} अण
३५, १, ५; २, ११^२; अअ १
२४^क; २, १७^३; ५, १६; ८

a) वैप १, परि. च द्र. । b) =ऋषि-विशेष- । c) वैप १, ५३४ e द्र. । d) पाभे. वैप १ परि.

असुनीताय टि. द्र. । e) विप. । उस. । f) पाभे. वैप १ परि. असुम् ऋ १०, १५, १ टि. द्र. । g) तप्त.

उप. =प्रशस्त- (तु. दु. स्क.) । h) पाभे. वैप २, ३खं. असुना तैत्रा २, ३, ८, २ टि. द्र. । i) विप. बस. ।

उप. =पुत्र- । j) पाठः ? एकतरत्र असन-वत्- > -वतः असून् [रश्मीन्] इति, अन्यत्र असन-वत्- > -वन्ति असूनि

(इन्द्रियाणि) इति च शोधः (तु. RNM.) । k) पाठः ? न स्वसव्यम् इति शोधः विमृश्यः । l) =आयुध-

जीविजाति-विशेष- । m) आसुर- इति पाका. । n) पाभे. वैप १, १०१८ u द्र. । o) =मेघ- ।

p) वा. ? अप्सरसः इति प्रश्ने अपेक्षया प्र १ साधीयः । q) पाभे. वैप १, १५५२ o द्र. । r) पृ ११३ j द्र. । तत्र

०रे अधि इत्यत्र प्राद् अधि इति शोधः ।

१० (४); ९, ६ (१, २, ६^३);
९, ७ (३); ११, ३ (२^३, ३^३); १२,
५ (१, ३^३, ४-६, ७^३); १३, ४
(१-३, ४^३, ५); १५, १; २; ३^३;
६; ९; १०; १३; १५; १६; १६,
१^३; २^३; ३; ४; ६^३; ७^३; १८, ३^३;
४^३; १९, २२; २३; ६९^३; पिं२, ४;
१३; -रीम् ऋअ १, २४; ७,
३८.

आसुरि-गवी^३- -व्यः
माश्रौ ४, ६, १.

आसुरी^३-कल्प-
-ल्पम् अप ३५, १, ४.

आसुरी-गायत्री^३-
-व्यः अत्र ११, ३ (२); ४; १५,
१०; १२-१४; -व्यौ अअ २,
१७; ९, ७; ११, ३ (१); १३,
४ (२, ४).

आसुरी-जगती^३-
-व्यः अत्र ११, ३ (२); १६, ८;
१९, २२; -व्यौ अत्र ९, ७.

आसुरी-त्रिष्टुभ^३-
-पुभः अत्र २, १७; १६, ८.

आसुरी-दुहितृ^३-
-तरम् अत्र ६, १००.

आसुरी-पङ्क्ति^३-
-ङ्क्तयः अत्र ११, ३ (१, २),
१६, ८; १८, ४.

आसुरी-बृहती^३-
-व्यः अअ १५, ६; -व्यौ अअ
११, ३ (१); १६, ८.

आसुरी-वनस्पति-दे-
वता->°वत्य- -त्यम् अत्र १,
२४.

आसुरी^३-इलक्षण-पिष्टा
(ए-आ) ज्य^३- -ज्यम् अप
३५, १, ६.

आसुरी^३-होम-तसः (ः)
अप ३५, १, ९.

आसुर्यै (री-अ) तुष्टु-
भ^३- -पुभः अत्र ५, १६; ११,
३ (१, २); -पुभौ अत्र १२,
५ (४); १५, १७.

आसुर-गान्धर्व- -वौ वैवृ
६, १२ : १२.

आसुरा(र-आ)दि- -दिषु
वैवृ ६, १२ : ७.

! आसुरादिप्रमाद्या कौशिद्रे.
आसुरा(र-आ)द्य- -द्यैः वैवृ
६, १२ : ११.

असुर-घ्न- -घ्नम् सु १९, ५; वौवृ
२, २, ९१.

असुर-च्छन्दस^३- -न्दसाम् वाधूश्रौ
४, १०० : ८; -न्दसि निसू १,
६ : १३.

असुर-च्छन्दस- -सानि वाधूश्रौ
४, १०० : ३.

असुर-स्व- -स्वम् वृदे ४, १२२१; या
३, ८; १०, ३४१.

असुर-पूर्वक- -कम् भाशि १०८.

असुर-माया- -यया वृदे ७, ५४.

असुर-वत् अत्राय १, ५.

असुर-विद्या- -द्या आश्रौ १०, ७,
७; शाश्रौ १६, २, २१.

असुर-सायुज्य- -ज्यम् चाअ १९:
१८.

† असुर-हन्^३- -घ्नः ऋग्रा २, ४६;
-हणम् आपश्रौ १६, ३०, १;

वैश्रौ १८, २० : ४४; हिश्रौ ११,
८, ४.

असुर्य- पा ४, ४, १२३; ५, १, २;
-र्यम् बौश्रौ ८, १९ : १८१; १४,
२८ : १; भाशि ७१.

२ असुर^३- > आसुरि- पाग २, ४,
६१; ४, २, १३८; -रिः अप ४३,
३, ६१; -रेः शुअ १, १९९; पावा
४, १, १९.

आसुरायण- पा २, ४, ६१; -णाः
बौश्रौ प्र ४१ : ५; चव्यू ३ : ७.

आसुरायणी- पावा ४, १, १९.

आसुरीय- पा ४, २, १३८.

अ-सुर-रत^३- -ताः या ३, ८.

अ-सुरा^३- -रायाः वाध २०, १९.

असुरा-मद्य-पायिन्- -यो शंघ
३८९; ४१४.

अ-सुरा-प^३- -पः माश्रौ ५, २, ४,
२९.

अ-सुषिर, रा^३- -रम् आपश्रौ ७, १,
१७; बौश्रौ २५, ५ : २; माश्रौ
१, ८, १, ४; आमिग ३, ४, १ :
१३; बौपि १, ४ : २; ३, २, ८;
हिपि १ : ३; गौपि १, २, ६; -रा
माश्रौ १, २, ९; -राम् आपश्रौ
१, १, ८; ७, १२, ५; १६, १, ७;
माश्रौ १, १, १, १२; हिश्रौ ११,
१, ११; १७, १, १३.

अ-सुहित- -तौ काश्रौ २, १, १०;
वाश्रौ १, १, २, २.

अ-सू^३- > °सू सू^३- -स्वः अप्रा ३, ४,
११.

अ-सू (त >) ता- > °त-जर (त >)
ती^३- पा ६, २, ४२.

a) कस. पूष. हस्वः उरसै. (पा ६, ३, ४३) । b) =राजिका- । c) कस. पुंवत्त्वनिषेधः (पा ६, ३, ३९) ।

d) षस. > कस. > मलो. कस. । e) =छन्दोविशेष- । f) वैप १, परि. च द्र. । g) व्यप. । व्यु. ? । h) तस. > प्रास. (तु. दु. BNN. SEY L २७; प्रसृ.) । i) उप. =वैष्ठी-सुरा- । j) तस. > उस. । उप. ✓ पा। पाने। † टक् प्र. (पावा ३, २, ८) । k) विप. । वस. । l) वैप १ द्र. । m) कस. पूष. < ✓ सू। प्रागिप्रसवे ।

असूत-विधवा- -वा वैट्ट ५, ९ : २.
असूय^१ - > √ असूय पाग ३, १, २७.
 असूयक- पा ३, २, १४६; -काय वाध २, ८; विध २९, ९; या २, ४.
 असूयत्- -यन् वृदे ७, १४८.
 असूयन्ती^२ - -न्त्यै आश्रौ ८, १४, ४.
 असूया- -या वाध ६, २४; आपध १, २३, ५; हिध १, ६, १३; या २, ३; -यायाम् या १, ५.
 असूया-कुत्सन- -नयोः पावा ८, १, ८.
 असूया (या-आ) दि- -दिषु पावा ८, २, १०३.
 असूया-प्रतिवचन- -ने पा ३, ४, २८.
 असूया (या-अ) संमति-कोप-कुत्सन- -नेषु पा ८, २, १०३.
 असूया (या-अ) संमति-कोप-कुत्सन-अर्त्सन- -नेषु पा ८, १, ८.
 असूयु^३ - पाउना १, ३७.
 †असूर्त^४ - -ते निघ ४, ३; या ६, १५.
 अ-सूर्य-पश्य, इया^५ - पा ३, २, ३६.
 †असूज^६ - -सूक् आगृ ४, ८, २८; विध २२, ८१; ४३, ३९; ७१, ३३; वृदे ७, ८०.
 असूग्-अहन्- -हनी या ४, १९.^७
 असूग्-भाग^८ - -गानि बौश्री २, १० : ३१.

असूग्-भाज- -भाजः बौश्री २, १० : ३३.
 †असूक्-सुख^९ - -खः आपश्री १५, १९, ४; बौश्री ९, १८ : १२; भाश्री ११, १९, १३; माश्री ४, ६, ३.
 †असूष्टाः^{१०} वैश्री १८, १२ : १४†.
 अ-सोढ- -ढः पा १, ४, २६.
 †अ-सोम- -मम् या ११, ४^३; -मे काश्री ६, ५, २२.
 †अ-सोम^{११} - -मानाम् काश्री २२, ६, ३.
 अ-सोमप- -†पः द्राश्री ६, ४, १७; लाश्री २, १२, १७; कौसू ९१, २०; -पाः गौपि २, ४, १८; -पात् गौध १८, ३१.
 †अ-सोम-पूर्व- -र्वः तैप्रा ९, २१.
 अ-सोम-याजिन- -जिनः आपश्री २४, २, ३२; ३४; वाश्री १, २, २, ३७; वैश्री ४, ५ : ९; हिश्री १, १, ७४; -जिना हिश्री १, ४, ६; -जी आपश्री १, १४, ८; बौश्री १७, ५० : १^२; २; भाश्री १, १५, ८; वैश्री ३, ९ : ३^३; २०, २८ : ५; हिश्री १, ४, ६; द्राश्री ७, २, १; लाश्री ३, २, १; वाध ८, १०; भाशि ८०†.
 असौ अदस्- द्र.
 अ-सौत्रामणी- -ण्याम् शुप्रा ३, १२५; ४, ७०.
 †असौर्यासौ-असौर्यासौ अप ३६, ९, ३.
 अ-स्कन्दयत्- -यन् आपध २, १९, ५; बौध २, ७, ६; हिध २, ५, ७७.
 अ-स्कन्न, न्ना- -न्नम् काश्री २५, २,

२४^६; शांग २, १३, ५^७; -न्नाम् अप ४१, ३, १०.
 †अ-स्कम्भन^{१२} - -ने या १०, ३२.
 †अ-स्कृद्योयु^{१३} - -युः अप ४८, ११५; निघ ४, ३; या ६, ३६.
 †अ-स्खल^{१४} - -लः पाग २, ६, १०.
 †अस्त- √ अस् (क्षिपणे) द्र-
 †अस्त^{१५} - -†स्तम् आश्री ६, ११, ९; शाश्री १०, १, ११; आपश्री ५, १८, १; बौश्री ५, ८ : ७; २५, १ : २१; वाधूश्री ४, २८ : ९; हिश्री ३, ४, ५४; आपमं १, ९, ५; पाग १, ८, ९; काग २५, ४६; बौग १, ५, २९; माग १, १२, १^६; २, १, १०; हिग १, १९, ४; जैग १, २१; ३२; अत्राय ६, ९; नि ३, ४; या १०, २१; १२, २८; †पाग १, १, ३७; ४, ६८; -स्तात् शंघ ७^१.
 अस्तं √ या > अस्तं-यात्- -याति बौश्री १८, १८ : ४; आग २, ६, १४.
 अस्तं √ गच्छ, गम्, अस्तंगच्छति अप ७०^३, ११, ६.
 अस्तं-ग- -गयोः अप ५३, ६, ५.
 अस्तं-गत- -तयोः विध ६८, ३; -ते ग्रामिगृ २, ६, ८ : १०; वेज्यो १६.
 अस्तं-गमन- -नात् अप १३, १, ४.
 अस्तंगमन-भोजन- -नात् अत्र १, ४६, २.

a) वैप १ द्र. । b) = देवी-विशेष- । c) वैतु. पाउना < असु- + √ या इति । d) असमर्थसमासः । e) विप. । बस. । f) पाठः ? अ-धृष्टाः इति शोधः (तु. सपा. ऋ १०, १०१, ८ प्रमृ.) । g) अस्कन् इति चौसं. web. च ? h) पाप्मे. पृ ६७ p द्र. । i) वैप १, परि. च द्र. । j) विप. । तस. उप. कर्तरि < √ स्खल्, यद्वा बस. उप. भाप. । k) अस्वम् इति पाठः ? यनि. शोधः (तु. ऋ १०, ८५, ३३) । l) = अस्ताचल- ।

अस्तमन^१- नम् अप ७०^३, ११, ३.
 अस्तम् √ ह, अस्तमिति वाधूश्रौ
 ३, २४ : १; २७ : १०;
 २८ : ३; ४, १३ : ३; ३३ :
 २४; १११ : ४; वृदे २, ६८;
 अस्तमेषि या ७, २३; अस्तमि-
 यात् आपश्रौ १५, २, १३; १७,
 १२; भाश्रौ.
 अस्तं-यत्-यति वाधूश्रौ ३,
 ७० : ३; ७९ : ९; -यते
 वेताश्रौ ११, १३^१; -यन् वाधूश्रौ
 ४, ३४ : २; ७; -यन्तम् आपश्रौ
 ११, २०, २; कौसू ५८, २३; वाध
 १२, १०; आपध १, ३१, १८;
 विध ७१, १८; हिध १, ८,
 ३७.
 अस्तम्-अय-यम् वाश्रौ ३,
 ४, १, ८; -यात् शाश्रौ ११,
 १३, २; काश्रौ; -ये वेताश्रौ
 २१, १७; वैध ३, १, १४.
 अस्तमय-संधि-धिः निस्
 २, १२ : १७.
 अस्तमयो (य-उ) द्य-
 -याम्याम् द्राग १, ५, ७.
 अस्तम्-इत्, ता-तः काश्रौ
 ८, ९, ७; बौश्रौ; -तम् या
 १२, ३७^२; -तायाम् वाधूश्रौ
 ४, २८^४ : १; -ते आश्रौ २, २,
 ९; शाश्रौ; शागृ १, १७, ३^०;
 कौसू १४१, १०; ३७; -तेते
 पाग २, १४, २२; -तेषु वैश्रौ

१२, १३ : ६.
 अस्तमिता (त-अ) जु-दित-
 -तयोः पागृ १, ९, २.
 अस्तमिता (त-उ) दिता^०-
 -ता गोगृ १, ५, ११.
 अस्तम्-ईक^१-के अप ४८, ७३;
 निघ २, १६.
 अस्त-शैल^०-लम् कप्र १, ९, १.
 अ-स्तना^१-नाम् बौश्रौ १०, ५ :
 २०^१.
 अस्तरण^१- (> १आस्तरण- पा.)
 पाग ५, १, ९७^४.
 अस्ति^{*}- √ अस् (भुवि) द्र.
 अस्ति^१- पाउवृ ४, १८०.
 अस्ति^१- (> आस्तायन^१- पा.)
 पाग ४, २, ८०.
 अस्तिबल^१- (> आस्तिबलायन^१-
 पा.) पाग ४, २, ८०.
 अ-स्तिभि (क>) का^१-काः हिश्रौ
 ३, २, ५०.
 अस्तु-अस्तुंकार- √ अप् (भुवि) द्र.
 अस्तुत, ता-तम् शाश्रौ १३, १०,
 ४; आपश्रौ १४, २३, १२;
 माश्रौ ३, ७, २; हिश्रौ १५, ६,
 ३१; ३२; -तायाम् लाश्रौ ४,
 ४, ७.
 अ-स्तुत-शख^१-खः मीसू १०,
 ५, ४९.
 अस्तुशः^१ शाश्रौ ८, २४, १^३.
 अ-स्तूयमान, ना-नम् निस् ५, ९ :
 २०; -नाः लुसू १, ५ : २३;

६ : ४; ९; १६.
 अस्तु- √ अस् (क्षिपणे) द्र.
 अ-स्तृणात्^१-णन् आपश्रौ ८, १४,
 ५; भाश्रौ ८, १६, २०; वाश्रौ
 १, ७, ४, २३; वैश्रौ ९, ५ :
 १०.
 अ-स्तृत^०-तः बौश्रौ २८, ९ : १०;
 -तम् बौश्रौ ८, ३ : ५; आपधं
 २, १२, १^०; आगृ १, १५, ३^०;
 आमिगृ २, १, ३ : ५^०; बौगृ २,
 १, ५^०; भागृ १, २४ : ५^०; मागृ
 १, १७, ५^०; वागृ २, ५^०; हिगृ
 २, ३, २^०; जैगृ १, ८ : १२^०;
 अशां १९, ७; -ता आपश्रौ १६,
 २३, १; बौश्रौ १०, ३१ : १.
 अस्तृत-मणि-दैवत^१-तम् अत्र
 १९, ४६.
 अ-स्तृहण-णम् कौसू ११, १६.
 अ-स्तेन-नाः हिध २, ५, ९^१.
 अ-स्तेय-ये पा ३, ३, ४०.
 अस्तेया (य-अर्थ)-र्थम् पावा ३,
 ३, ५८.
 अ-स्तैन्य-न्यम् बौध २, १०,
 ४१; ३, १०, १४.
 अस्तैन्या (न्य-आ) दि-दीन् वैध ३,
 ६, ५.
 अ-स्तोक-कम् सु ३१, ३.
 अ-स्तोत्र^१-त्रम् लुसू ३, २ : ३१;
 -त्राः बौश्रौ २५, २१ : १४.
 अ-स्तोत्र-भूत^१-तानि जैश्रौ २ : २;
 १४.

a) व्यु. ? < अस्तमयन- इति MW. । b) सप्र. अस्तमिते <> नक्षत्रेषु दृश्यमानेषु इति पाभे. ।

c) विप. ([सूर्येऽस्तमित एव उदीयमान-चन्द्रा-] पौर्णमासी-) । बस. । d) व्यु. ? । तु. वैप १; वैतु. MW. प्रभृ.
 < अस्तम् √ अस्च् इति । e) = अस्ताचञ्ज- । कप्र. । f) वैप १, परि. च द्र. । g) अर्थः व्यु. च ? ।
 h) तु. भाण्डा. PW. । २आस्तरण- इति पाका. प्रभृ. । i) = असि- । j) = देश-विशेष- ? ।
 k) विप. । बस. । l) तस. > बस. । m) सपा. खि ५, ५, १० अस्तुशः इति पाभे. । n) तस. उप. < √ स्तृ
 [आच्छादने] । o) तस. उप. < √ स्तृ [हिंसायाम्] । p) पाभे. वैप २, ३खं. अस्तृतम् मंत्रा १, ५, १८ टि. द्र. **३**
 q) विप. । कप्र. > बस. । r) सप्र. अस्तेनाः <> स्तेनाः इति पाभे. । s) तस. > कप्र. (पा २, १, ५९) ।

अ-स्तोत्र-स्थान^a- नम् लाश्रौ १०,
३, १; ५.

अ-स्तोत्रि, त्रीज्य^b- -यः शाश्रौ ७,
२६, १; -ये निम् २, ४ : ३७.

अ-स्तोभ^c- -भः लाश्रौ ६, ११, ७;
-भानि लाश्रौ ७, १, ४; -भौ
लाश्रौ ७, २, २.

अ-स्तोम-योग^d- > ंगा (ग-अ)-
यजमानवाचन^e- -नेन लाश्रौ
३, ८, १^f.

अस्तोमयोगा (ग-अ) यजमानवाचना
(न-अ) कुशाविधान- -नेन
द्राश्रौ ९, ४, ७^f.

१^gअस्त्र^h- -स्त्रम् वृदे ५, १३३;
-स्त्राणि शंघ ११६ : ३७; -स्त्रेण
अप ३५, १, ७.

अस्त्र-भृत्- -भृत् वाध १४, ५.

अस्त्र-मन्त्र- -मन्त्रः अप ३६, १, १५.

२अस्त्र^b- (> आस्त्रायण- पा.) पाग ४,
१, १९.

अ-स्त्री- -स्त्रियाम् पा २, ३, २५;
४, ६२; ३-४, १, ९४; ५, ३,
११३; ७, ३, १२०; पावा ४,
१, १४७; १६३; -स्त्री पा १,
४, ४; -स्त्रीषु गौध २४, ५.

अस्त्री-पूर्वपद-विवक्षित-त्व-
-त्वात् पावा ६, ३, ४१.

अस्त्री-संज्ञा-प्रतिषेधा (ध-अ) र्थ-
-र्थः पावा ३, १, ११२.

अस्थ्य (स्त्री-अ) र्थ- -र्थम् पावा ६, ३,
३५.

अ-स्त्री-विषय- -यात् पा ४, १, ६३.

अ-स्त्यु (स्त्री-उ) पायिन्^l- -यो काश्रौ
२२, ७, १८; बौश्रौ ३, १३ : ६;

१८, २४ : ४; २४, ३३ : १३;
२५, २९ : ९^l; वैश्रौ २, १० : ४;
३, २ : २१.

अस्त्वन्त- √अम् (भुवि) द्र.

अस्त्वा √अस् (क्षेपणे) द्र.

अ-स्थ- ३अ- द्र.

अस्थः आश्रौ १०, ९, २^k.

अस्थन्^k- -स्थनि काश्रौ २५, ६,
२; -^kस्थभिः आश्रौ ७,
२, ३^l; आपश्रौ १७, ८, २;
माश्रौ ६, २, २, २०; वाश्रौ २,
१, ८, ३; हिश्रौ १२, १, १९;
आमिष्ट २, ३, ५ : १२; ३, ९, १ :
१४; तैप्रा ११, १७; -स्थानि
बौश्रौ २६, ८ : १४; बौपि २, ६,
१; २; ३^l; ३, ७, ३; बौशु ६ :
९; -स्थनः अप्रा ३, २, १०^k;
-^kस्थना आपश्रौ १६, १९, १;
वाधूश्रौ ४, ६५ : ४; १०९ : ५;
वैश्रौ १८, १६ : ८; हिश्रौ ११,
६, ३१; भाशि ५५; -स्थनाम्
कप्र ३, ४, ३; ९; अप्राय २, ८;
वाध ३, ५२; बौध १, ५, ३९;
विध ९६, ५५; बौशु ६ : १;
मीस् १०, २, ४५; -स्थिन कप्र
३, ८, ५.

अस्थन्-वत्- -वताम् विध ५०, ४६;
गौध २२, २२; २४.

१अ-स्थान^b- नम् निम् २, ७ : २३,
गौपि २, ७, ३३; -ने माष्ट १, २,
१९; काष्ट ३, १७; वाष्ट ९, १९;
-नेषु अप ७२, ३, १.

अस्थान-पठित- -न्ते अप २३, ११, ३.

अस्थानो (न-उ) च्छ्वास-विच्छेद-

घोषणा (ए-अ) ध्यापना (न-आ)
दिक^m- -कम् कप्र ३, ८, १६.

२अ-स्थान, ना^c- -ना निम् ९, ८ :
३१; -नात् मीस् १, १, ७.

अ-स्थानि-वत्-त्व^b- -त्वे पावा
१, १, ५७.

अ-स्थानि (न >) नी- -नीम् आश्रौ ३,
१३, २०.

अ-स्थाव (र >) रा^m- -राणाम् या
२, १६.

अस्थिⁿ- पाठ ३, १५४, पा ७, १,
७५; ७६; पाग ५, ४, २९; ३४;
-स्थि ^kआपश्रौ १०, १४, ९;
२०, १९, ९; बौश्रौ १५, ३१ :
२३; वाधूश्रौ ३, ९६ : २; ४,
६५ : ४; १०९ : ५; हिश्रौ
१४, ४, ३३; आष्ट ४, ५, ५;
आमिष्ट ३, ४, ५ : ९; बौपि १,
११ : १२^k; गौपि १, ५, ३१;
अप ४६, ५, २^k; विध १९, १२;
गौध २४, ८; वृदे ७, ७८; अअ
४, १०^k; -स्थिभिः वैश्रौ १९,
५ : ४४^k; वैताश्रौ १४, ४०;
पाग १, ११, ५; बौपि २, ६, ३^k;
वाध २०, २६^k; -स्थिभ्यः
अप्राय २, ९^k; अअ २, ३३^k;
या १४, ६; -स्थीनि शाश्रौ ४,
१५, ८; १३, ११, १; ८; काश्रौ
२५, ८, १; ३; १३, २७;
३५; ४३; आपश्रौ १४, २१,
१२; २२, ११; १२; बौश्रौ १४,
२७ : २०; माश्रौ ३, ८, ४^l; ५;
७; वाधूश्रौ ४, ६५^l : ३; वैश्रौ
२०, २३ : ३^l; २१, ९ :

a) तस. > षस. । b) तस. । c) विप. । बस. । d) विप. । बस. > षस. । e) द्वस. ।

f) परस्परं पाभे. । g) वैप १, परि. च द्र. । h) = ऋषि-विशेष- । व्यु. ? । i) तस. > उस. । j) षायः

इति पाठः ? यनि. शोषः । k) पाभे. पृ ४३८ e द्र. । l) ष्तुभिः इति BI. ? । m) सस. > द्वस. > बस. ।

४) विप. । तम. । o) ष्ठीति इति पाठः ? यनि शोषः ।

२^०; ३; हिश्रौ १५,५,३९; ४०;
 लुसू १, ११ : १; १४; पागृ १,
 ११,५; आमिगृ ३,४,५ : ४; ६,
 २ : १५; १७; ३ : १५; २४; ४ :
 ४; ९, १ : ९; ११; १२; १३;
 बौपि १, १० : ५; ७; ११ : २०;
 १३ : ४; वैगृ ५, १२ : ६; हिपि
 ९ : १; ७; १० : ३; २२ :
 १३; गौपि १, ५, २२; २, १,
 २४; कप्र ३, ४, २; १०; १०,
 ४; कौसू ६६, ३१; ८२, २५;
 अप्राय ६, ७^२; अप ७०^३, ७, ४;
 ७१, ८, ३; वाध २०, २६; विध
 ९६, ७०; अत्र ९, ५; या १४, ६.
 आस्थिक- पा ५, ४, ३४.
 अस्थि-क- पा ५, ४, २९.
 अस्थि-कुम्भ- म्भम् शाश्रौ १३,
 ११, २; ९; आपश्रौ १४, २२, ६;
 बौश्रौ १४, २७ : ९; १६; १८;
 वैश्रौ २१, ८ : १; ९ : १; ५;
 हिश्रौ ११, ५, ३३; ४०; आमिगृ
 ३, ४, ५ : १०; ८, १ : १५; २ :
 १०; ४८; बौपि १, १४ : १४;
 १५ : २०; ५४; ३, १०, ३;
 हिपि १५ : ८; २३; गौपि १,
 ५, ३३; ३४.
 अस्थि-गणना- ना वैगृ ५, १२ : ७.
 ?अस्थि-ग(र्भं)>र्भा- -र्भायै बौश्रौ
 २६, ८ : १३.
 अस्थि-पुट- -टम् अप्राय ६, ७.
 अस्थि-भूमि- -म्याः गौध १, ३३.
 अस्थि-मज्जा-शिरोरुह- -रुहाम्
 अप ७०, ५, ५.
 अस्थि-मत्- -मताम् वाध २१,
 २६; शंघ ४८९; विध ५०, ४७.

अस्थि-मय- -यम् द्राश्रौ ५, ४, २;
 लाश्रौ २, ८, ३; बौगृ २, ११,
 ६५.
 अस्थि-मात्र- -त्रम् काध २८१ : ४.
 अस्थि-यज्ञ- -ज्ञः मीसू १०, २, ४५.
 अस्थियज्ञ-वत् मीसू १०, २, ५७.
 अस्थियज्ञा(ज्ञ-अ)वभृथ- -थम्
 वैश्रौ २१, ९ : ९.
 अस्थि-याजन- > °नीय^b- -यः
 माश्रौ ३, ८, ७.
 अस्थि-रोम-केशा(श-अ)ङ्गार-तुष-
 काष्ठा(ष्ठ-अ)श्म-लोष्ट-पिपीलिका-
 (का-आ)दि- -दीन् वैश्रौ १,
 २ : २.
 अस्थि-शिरा-धमनि-स्नायु-युत-
 -तम् विध ९६, ५२.
 अस्थि-सं(ख्या>)ख्य^c- -ख्यानि
 कप्र ३, ४, ३.
 अस्थि-संचय- -ये विध २२, ६२.
 अस्थिसंचय-कर्मन्- -र्मणि
 वृदे ७, १८.
 अस्थि-संचयन- -नम् आमिगृ ३,
 ४, ५ : १; बौपि ३, १०, १;
 विध १९, १०; वैगृ ५, ७ : ६.
 अस्थि-संदेह- -हात् काश्रौ २५, ७,
 ३८.
 अस्थि-संभव^c- -वम् सु २७, ६.
 †अस्थि-सौख्य^c- -ख्याः आमिगृ
 ३, ४, २ : १७; बौपि ३, २, ३;
 गौपि १, २, ४१.
 अस्थि-स्नायु-मज्जन्- -ज्जानः या
 १४, ५.
 †अस्थि-संस^d- -सम् कौसू २९,
 ३०; अज ६, १४.
 अस्थ्या(स्थि-आ)दि- -दिषु पावा

७, १, २३.
 अ-स्थित- -तम् ऋप्रा १३, ९.
 अस्थित-परिमाण^e-त्व- -त्वात्
 मीसू ९, ३, ३०; १०, ६, ६१.
 अ-स्थिर- > °स्त्व- -त्वात् बौध
 १, २, ५.
 अस्थिर-बुद्धि^f- -द्धयः अप ६८, १,
 ४०.
 †अ-स्थुरि^d- -रि शाश्रौ ४, १२,
 १०; काश्रौ ६, ४, ३; आपश्रौ
 २, ५, ९; ११, १९, ८; बौश्रौ १,
 १२ : ३१; ४, ६ : ११; ७, ९ :
 १७; भाश्रौ २, ५, ९; माश्रौ २,
 ३, ६, १७; ६, १, ८, १०; वाश्रौ
 २, १, ८, ७; हिश्रौ १, ७, २१;
 ७, ८, ४३; कौसू ७०, ९; शुप्रा
 ३, ८६; तैप्रा ७, २.
 अ-स्थूल- -लः आपश्रौ ७, ३, २;
 -लम् माश्रौ १, ८, १, १४; वैश्रौ
 १०, २ : ६; मागृ १, ३, ५;
 -लात् पा ५, ४, ११८.
 अस्थूल-शङ्कु- -ङ्कुवः वैश्रौ १३,
 ७ : १३.
 अस्थूल(ल-आ)दि-गुण-युक्त^e-
 -क्तस्य शुभ्र ४, १२६.
 अ-स्थेयस्^d- -यसाम् आपमं १,
 १६, ५; †.
 ?अस्थो^fवाश्रौ ३, ३, २, २८.
 अ-स्नात,ता- -तः, -ताम् शंघ १००.
 अ-स्नानजपहोमिन्- -मी वैध २,
 १४, १३.
 अ-स्निग्ध- -ग्धाः अप ५२, ५-६, २;
 -ग्धे वाध २३, २५.
 अस्निग्धा(ग्ध-अ)चिंस^e- -चिंसः अप
 २१, ७, ५.

a) °स्थीन् इति पाठः? यनि. शोघः । b) विप. । तदस्य प्रयोजनमित्यर्थे छः > ईयः प्र. (पा ५, १, १११) । c) विप. । बस. । d) वैप १, परि. च द्र. । e) विप. । बस. > कस. > वृस. । f) पाठः? अथो इति शोघः विमृश्यः ।

अ-स्नेह^a-हम् विध २२, ७५^b.
 अ-स्नेह-युक्त-क्तानि अप ५२,
 ११,३.
 अस्पः ✓स्पृ द्र.
 अ-स्पन्दयत्-यन् आश्रौ ४,४,२०.
 १अ-स्पर्श^a-शार्त् शुप्रा ४,९१.
 अस्पश-पर^a-रः शुप्रा ४,९८.
 २अ-स्पर्श^a-शै पा ८,२,४०.
 ३अ-स्पर्श^a-शैः आपध १, २२, ७;
 हिध १,६,७; -शैम् या १४,३.
 अ-स्पर्शयत्-यन् माश्रौ १, ६, १,
 ४६; ५,२,१५,१८.
 अ-स्पृशत्-शन् आश्रौ १, १३, ५;
 माश्रौ १, ८, ३, १८; ५, १२;
 वैध २,११,४.
 अ-स्पृश्य-श्यः विध ५, १०४; वैध
 ३, १३, ११; १४,१०; -श्यम्
 शंघ ३८९; वैध ३,८,१.
 अ-स्पृष्ट-ष्टः भाश्रौ ५,१, २; -ष्टम्
 काश्रौ १७, ४, १०^o; अप १४,
 १, ३; ऋप्रा १३, ११; माशि
 ६, ८ⁱ; याशि २, ९४ⁱ; -ष्टाः
 पाशि २३ⁱ; याशि २, ९४ⁱ;
 -ष्टानाम् कप्र १,१,१.
 अस्पृष्ट-मैथु(न>)ना^o-नाम् मागृ
 १, ७, ८; वागृ १०, ८; वाघ
 ८,१.
 अस्पृष्टो(ष्ट-उ)दक^a-काः आश्रौ
 ५,७,८¹⁸.
 अ-स्पृष्ट्वा आश्रौ ३,६,२५.

अ-स्पृहयालु-लुः वाध ८,९.
 अ-स्पृहा-हा गौध ८,२१.
 अ-स्फुटिता(त-आ)हुति^b-तिम्
 अप २७,१,४.
 अ-स्फय¹-स्फयः आपश्रौ ११, १९,
 ७; बौश्रौ २०,२५: ८; वैश्रौ १४,
 १७: १०; हिश्रौ ७, ८, ३९;
 -स्फयैः बौश्रौ १, १९: ३;
 भाश्रौ ३,४,७; हिश्रौ २,३, ४७.
 १अ-स्म^a-स्मे पा ३,२,१२२.
 १अस्मद्¹-पाग १,१,२७.
 २अस्म-स्मभ्यम् आश्रौ २, ५,
 १२; शाश्रौ; या ६,७; -स्मान्
 आश्रौ १,३,२२; ६, १३, ११^k;
 ८,१२,६^k; शाश्रौ १,६,६; ४,१२,
 २; १५, ४^k; काश्रौ ७,२, १५^k;
 आपश्रौ ३,११, २; ७, १७, १ⁱ;
 १०, ६, १^k; बौश्रौ ४, ६: ३६ⁱ;
 ७, ८: १; ११,४: २०ⁱ; भाश्रौ
 ७, १३, ४ⁱ; हिश्रौ ४, ३,
 ५४ⁱ; द्राश्रौ;-स्मान्-उ-स्मान् उस्
 ५, ५^f; -स्माभिः सु ११, २;
 -स्मासु आश्रौ २, ५, १७^f;
 शाश्रौ; आपश्रौ १, १०, ६^m;
 -स्मै आश्रौ २, ११, १९ⁿ;
 काश्रौ; बौश्रौ ९, ११: १०.
 ✓^mअस्मय>स्मयु^p-
 पाउभो २, १, ३७; -स्मयुः
 आपश्रौ १७, ९, १; वैश्रौ १९, ६: ३;
 या ६, २१^o; ऋप्रा ५, ३७; -युम्

शुप्रा ५, २^f.
 २अस्मद्-स्मत् आश्रौ १, ३, ३०;
 काश्रौ; आपश्रौ १६, १६, ११;
 वैश्रौ १८, १४: ४^p; -स्मदः पा
 १, २, ५९; पावा १, २, ५८;
 -स्मदि पा १,४, १०७; पावा १
 ४, १०८.
 अस्मत्-तस् (:) बौध २, १, ४९;
 वृदे ७, ६५.
 स्मत्-सखि^p-खा बौश्रौ
 १४, १२: १९; या ९, २२.
 अस्मद्-अर्थ-र्थम् गौध २८,
 १८.
 अस्मद्-आचार्य-र्यम् जैश्रौका
 ४.
 अस्मद्-आदेश-शो अप्रा २, ३,
 २३.
 अस्मदीय-पा ४, ३, १.
 स्मद्-दा(त्र>)त्रा^p-त्राः^f
 आपश्रौ १३, ६, १४; बौश्रौ ८,
 ६: १७; वैश्रौ १६, ७: ७; हिश्रौ
 १०, ४, ४९^q.
 स्मद्-रा(त>)ता^p-ताः^f
 शाश्रौ ७, १८, ९; काश्रौ १०, २,
 १९; माश्रौ २, ४, ५, १७.
 *अस्मद्भि->स्मद्भि(दि-
 अ)च्^p-द्भिक् आश्रौ २, १०,
 १६ⁱ; शुप्रा ६, २६.
 स्मद्-क^p-कम् आश्रौ २,
 ५, २; शाश्रौ ४, ९, १^u; काश्रौ;

a) विप.। बस.। b) सस्नेहम् इति जीर्ण. ?। c) तु. आन.। अस्यन्द^o इति BI.। d) तस. उप.
 =वर्गाक्षर-। e) वा. क्तिवि.। f) =करण-विशेष-। g) अस्पृष्ट्वोद^o इति पाठः ? यनि शोधः (तु. भाष्यम्)।
 h) तस. > कस.। i) बस. उप. =यज्ञीयपात्र-विशेष-। j) वैप १ द्र.। k) पाभे. वैप १ परि. अस्मान्
 ऋ १०, १७, १० टि. द्र.। l) पाभे. वैप १ ?सुमासृजन्तु मै ४, २, १० टि. द्र.। m) पाभे. वैप १ परि. अस्मभ्यम्
 मै १, ४, १ टि. द्र.। n) अस्मै इति BI. ?। o) पृ ३७१ e द्र.। p) वैप १, परि. च द्र.।
 q) पाभे. वैप १, ७७१ e द्र.। r) पाभे. वैप १ परि. अस्मद्दात्राः तै १, ४, ४३, २ टि. द्र.। s) द्रात्राः इति
 पाठः ? यनि. शोधः। t) पाभे. वैप २, ३ खं. तैत्रा २, ५, ३, १ अर्वाचीनम् टि. द्र.। u) पाभे. वैप १ परि. अस्मांसु
 तै १, ६, ३, २ टि. द्र.।

पा ७, १, ३३.
 †रअस्माक^a-कम् शांश्रौ ९, २२,
 ५; वैताश्रौ २४, १; -केभिः
 ऋप्रा २, ६९.
 आस्माक- पा ४, ३, २; -†कः^b
 काश्रौ ७, ७, ७; माश्रौ २, १, ४, १;
 हिश्रौ ७, २, ३७; शुभ्र १, २७४.
 आस्माकीन- पा ४, ३, २.
 अस्मे^c>°हिति^c- †तिः या
 ११, २, ५७.
 †अहम्^d आश्रौ १, २, १; १०, ७^e; ८^e;
 २, ११, ८^f; शांश्रौ ९, २८, ३^g; १०,
 ३, १०^h; काश्रौ १०, ५, ३^h; पागृ
 ३, ७, २ⁱ; हिगृ १, ११, ५^j; ११^k;
 या ११, ३३^l; पा ७, २, ९४^m.
 अहं-यु- पा ५, २, १४०.
 अहं-श्रेयस्ⁿ- -यसे शांश्रौ १४,
 २९, १.
 अहं-कार- -राय वैगृ ५, ३ : २०.
 अहंकार-युक्त- -क्तानाम् वैध
 १, ११, १२.
 अहम्-अहम्->°ह (मक^m>)
 मिका- पाग २, १, ७२.
 अहं-पूर्वे^o-ता- -तया निसू २,
 ९ : १३.
 आव^p- पा ७, २, ९२; -वम्

वाधूश्रौ ४, १९ : ४१^q; आपध
 १, २०, ६; हिध १, ६, २०;
 -वयोः सु ३१, ८; वृदे ५, ५७;
 -वाम् वृदे ३, २१.
 †नः आश्रौ १, ४, ९; ७, ८^r; २,
 २०, ४^s; शांश्रौ ३, १८, ४^t; ५,
 ८, ४^u; आपश्रौ ३, २०, १०^v;
 ६, २५, १०^w; १६, १८, ७^x;
 १७, ३, २^y; माश्रौ ६, १, २, २^z;
 आपमं १, १४, ६^z; कौगृ ३, १३,
 १०^{aa}; शांगृ ३, ७, ३^{ab}; ४, १३,
 ४^{ac}; मागृ १, २२, २; २, १५^{ad},
 ६^{ae}; हिगृ १, २७, ८^{af}; कौसू ७२,
 १४^{ag}; या ४, २१^{ah}; ऋप्रा ७, ५२;
 पा ८, १, २१.
 नः-कार- -रे ऋप्रा ८, १२; ३७.
 नः-पर- -रम् ऋप्रा ५, ८; -रे
 ऋप्रा ७, ३९; १०, ३; उस् १, १८.
 ना^{ai} वौगृ १, ५, २९; वैगृ ३, ८; ६; ८.
 †नौ आपश्रौ ६, ३, ८; हिश्रौ ६,
 ६, ५^{aj}; १३, ६, १०^{ak}; आपमं १,
 ३, १४^{al}; पागृ १, ४, १४; ३, २,
 ७^{am}; मागृ १, १८, १२; या ७,
 ३०; शुप्रा २, ३; पा ८, १, २०.
 मद्^{an} आश्रौ २, ५, ३^{an}; आपश्रौ;
 आपमं २, २१, ३२^{ao}; ३३; भागृ

२, २६ : १२^{ap}.
 मत्-तस् (:) कप्र २, २, ७; वृदे
 ४, ७१.
 मत्-प्रत्त- -तैः जैगृ २, १ : २२.
 †मत्-सखि^{aq}- -खा शांश्रौ १२,
 १३, २; वैताश्रौ ३२, १७; या
 १३, ४^{ar}.
 मत्-सख्य^{as}- -ख्यात् सु ३०, ४.
 मद्-अनुग्रह^{at}- -हात् शंघ १०३,
 मद्-अन्त^{au}- -न्तः वाधूश्रौ ४,
 ४५ : १०; ५३^{av} : ३.
 मद्-अर्थ^{aw}- -र्थे शुप्रा २, ३.
 मदीय- -यः अप १६, २, ३.
 मद्-गृह^{ax}- -हे आमिगृ ३, १२,
 १ : १९; -हेषु वृदे ६, ५५.
 मद्-देव(ता>)त,ता- -तः वृदे
 ७, ७४; -ता या २, ८.
 मद्-दैवत्य- -त्यः वाधूश्रौ ४,
 ५ : ८; १०; १२; १५; ७ : २;
 -त्यानि वृदे ७, ७४.
 *मद्-घ्रि-> *मद्रि-> †मद्य-
 (द्रि-अ) च^{ay}- -व्यक् आश्रौ ६, ४,
 १०; शांश्रौ ९, १३, २; वैताश्रौ
 ३१, २२.
 मद्-भक्त^{az}- -क्तः शंघ १२९.
 †मन्-मनस्^{ba}- -नसम् आपमं १,

a) वैप १, परि. च द्र. । b) पाभे. वैप १ परि. अमात्यः तै १, २, ६, १ टि. द्र. । c) वैप १ द्र. । d) तु. वैप
 १, ५४३ q, ५५४ k । e) पाभे. वैप १, १६१३ g द्र. । f) पाभे. वैप १, ७७९ e द्र. । g) पाभे. वैप १ परि. मा
 ८, ३९ टि. द्र. । h) पाभे. वैप १, ७८० f द्र. । i) पाभे. पृ ३३८ d द्र. । j) सप्र. अहम्<>तेजसे इति पाभे. । k)
 *यम् इति पाठः ? यनि शोधः (तु. पागृ २, २, १२) । l) तु. पा २, १, ७२ । m) बुज् प्र. [पा ५, १, १३३] वृद्धयभावश्च ।
 n) पाभे. वैप १ परि. नः मै १, ५, ३ टि. द्र. । o) पाभे. वैप १ फालाः ऋ ४, ५७, ८ टि. द्र. । p) पाभे. वैप १
 परि. अस्मान् मै ४, ९, २७ टि. द्र. । q) पाभे. वैप १ प्रणेभि ऋ १, ३१, १८ टि. द्र. । r) विशेषः वैप १, १००८ l द्र. ।
 s) पाभे. वैप १ परि. नः मा १५, १ टि. द्र. । t) पाभे. वैप १ परि. नः ऋ ७, ४१, ६ टि. द्र. । u) सपा. नः<>नौ
 इति पाभे. । v) पाभे. वैप २, ३खं. प्र...युयोतन मंत्रा १, ६, १४ टि. द्र. । w) सकृत् तु. सस्थ. टि. दधातु ।
 x) पाभे. वैप १ पलि शौ ३, १२, ५ टि. द्र. । y) पाभे. वैप १ परि. नः ऋ ४, ३१, ४ टि. द्र. । z) पाभे. वैप १
 परि. अस्मभ्यम् तै २, ६, १२, २ टि. द्र. । aa¹) सपा. ना<>नौ इति पाभे. । ab¹) तौ इति पाठः ? यनि. शोधः
 (तु. सप्र. मै ४, ४, ५ आपश्रौ १८, १७, ११) । ac¹) पाभे. वैप १ परि. मत् तै १, ५, १०, १ टि. द्र. । ad¹) सपा. मत्
 <>?वत् इति पाभे. । ae¹) षस. । af¹) विप. बस. । ag¹) वैप १, ५४९ k द्र. ।

३,६^०; -नाः माय २,१३,६.

†मन्-मन(स>)सा^०- -साम्
पाय १,४,१५^०.

†मम^० आश्रौ १, १, ४; काश्रौ;
आपश्रौ १४,२६,१^०; माश्रौ १,
६, ३, ९^०; आपमं २, ८, ९;
९, १३^०; पाय ३, ३, ५^०; पा
७, २,९६; ममा३म्^० आपश्रौ
२०, १६, १९; बौश्रौ १५,
२६: १; हिश्रौ १४, ३,
४७.

मम-क- पा ४,३,३.

मामक^०- पा ४, ३, ३; -कः
आपमं १,१६, १^०; वृदे ७,४४;
-कम् बौश्रौ १८, १८: १३^०;
-ककाः आपश्रौ १, १०, १२;
बौश्रौ.

मामकी- पा ४,१,३०.

मामिका- पावा ७, ३,

४४.

मामकीन- पा ४,३,३.

मम-ता^०- -ता वृदे ४,११.

ममता-सुत^०- -तः वृदे ३,

५६.

†मम-सत्य^०क- -त्यम् अप ४८,
१०५; निघ २,१७.

*मय^०- †मया आपश्रौ ४,१५, ४;
माश्रौ; †मयि आश्रौ १,२, १;
३, ११, ७^०; शाश्रौ ४, २१, ३^०;
काश्रौ ५, १३, १^०म; आपश्रौ
१, १०, १२; ९, ५, ६^०; आपमं
१, ८, ९^०; आय १, २४, २२^०;
कौय १, १०, १३^०; २४^०; ३, ४,
६^०; शाय १, १७, ३^०; ९^०; ३,
७, ५^०; पाय १, ३, १२^०; ८, १९^०;
९, ५^०; माय १, ९, ७^०; हिय १,
१३, १^०; †मे आश्रौ १, २, १^०; २,
९, १०^०; ६, १, २^०; ८, ३, २४^०;
शाश्रौ १२, १२, ६^०; आपश्रौ ४,
६, २^०; १०, ९^०; १५, १^०; ६, २४,
६^०; १३, १६, १०^०; वौश्रौ १७,
४३: १२^०; ४४: १^०; वैश्रौ १६,
२०: ८^०; वैताश्रौ १४, १^०; १९,
१८; २५, ९^०; कौय ३, ५, २^०;
शाय ३, ८, ४^०; बौय १, २, २७^०;
हिय १, १७, ४^०; या ४, २१^०;
ऋप्रा २, ४४; पा ८, १, २२;
पावा ४, ४, ३०.

मह्यम्^० पा ७, २, ९५; आश्रौ ३,
१०, ११^०; आपश्रौ २, १०, ५;
४, ५, १^०; ६, २९, १^०; वैश्रौ;
आपमं २, ५, २२^०.

†मै^०- मा आश्रौ १, २, १; शाश्रौ
१, ५, ९^०; काश्रौ ३, ८, २^०; आपश्रौ
२, ५, ७^०; ८, ७, १०^०; २४, १२,
१०^०; बौश्रौ १, ११: ४०; माश्रौ
१, ३, ५, १७^०; ७, २, १८^०; वाधूश्रौ
३, ९: २; वैश्रौ ३, ४: १८; हिश्रौ
६, १, २६; द्राश्रौ २, ३, ५; लाश्रौ
१, ७, ५; आपमं २, ७, २५; ९,
१२^०; २२, १३^०; पाय १, ३,
१५^०; आमिय २, ६, ६: १०^०;
वीय १, २, २७^०; भाय २, २३:
१०^०; माय १, ३, २^०; ११, २०^०;
२२, ५^०; वैय २, १६: ४^०; ९^०;
हिय १, १३, ३^०; १६, ६^०;
२, १७, ४^०; पा ८, १, २३;
†माम् आश्रौ १, २, १; ६,
३, २२^०; शाश्रौ १, ११, १;
आपश्रौ ३, १९, ३; बौश्रौ १, ७:
१२; वैश्रौ २०, १३: ५; हिश्रौ
६, २, ९; द्राश्रौ २, ४, ८; वैताश्रौ

a) सपा. †मनसम् <> †मनसाम् इति पाभे. । b) विप. । बस. उप. समासान्तः भच् प्र. (पावा ५.४.७५) ।

- c) वैप १ द्र. । d) पाभे. वैप १, ११३८ j द्र. । e) पाभे. पृ ४६७ b^१ द्र. । f) सपा. †मन <> मयि इति पाभे. ।
g) पाभे. वैप १ परि. मम तै ४, ३, ११, ४ टि. द्र. । h) वैप १, ५६७ ८ द्र. । i) = उचथ्यभार्या- । j) = दीर्घ-तमस्
[उचथ्य-ज-] । k) = संप्राम- । l) पाभे. वैप २, ३खं. मयि ऐत्रा ५, २७ टि. द्र. । m) पाभे. वैप २, ३खं. मयि माश ११,
४, ३, ८-१७ टि. द्र. । n) पाभे. वैप १ परि. मम शौ १४, १, ५२ टि. द्र. । o) पाभे. वैप २, ३खं. उदरे मंत्रा १, ४, ८
टि. द्र. । p) पाभे. वैप २, ३खं. अपामः मंत्रा २, १, १४ टि. द्र. । q) पाभे. वैप १ चः कौ १, ३७५ टि. द्र. । r) पाभे.
वैप १ परि. काठ ३१, १४ टि. द्र. । s) पाभे. वैप १ ते मा २७, ४५ टि. द्र. । t) पाभे. वैप १ ते शौ १, २२,
४^२ टि. द्र. । u) पाभे. वैप १ परि. नः काठ ३७, १५ टि. द्र. । v) पाभे. वैप १ परि. मा भै १, ४, १ टि. द्र. ।
w) सपा. मे <> मा इति पाभे. । x) पाभे. वैप १ परि. शौ १९, १४, १ टि. द्र. । y) सपा. मे <> मा
इति पाभे. । z) पाभे. वैप १ परि. नः शौ ९, १०, १२^० टि. द्र. । a^१) पाभे. वैप १ परि. नः शौ ६, ३२, ३ टि. द्र. ।
b^१) पाभे. वैप १ परि. मयि मा २०, ३२ टि. द्र. । c^१) पाभे. वैप १ त्वा ऋ १०, ८५, २४ टि. द्र. । d^१) पाभे.
वैप १ त्वा ऋ १, १५, १ टि. द्र. । e^१) पाभे. वैप १ त्वा ऋ १, ७६, २ टि. द्र. । f^१) पाभे. वैप १ परि. माम्
शौ ६, १२४, १ टि. द्र. । g^१) सपा. आपमं २, ३, ३१ आय १, २०, ७ कौय २, ८, ९ शाय २, १८, ४ मा [निषेधे] इति
पाभे. । h^१) पाभे. वैप १ त्वा मै ३, ११, ८ टि. द्र. । i^१) पाभे. वैप १ परि. जहृम् मा ८, ३९ टि. द्र. ।

१२, ७ ^a ; १९, १८ ^b ; २५, १४ ^c ; आपमं १, ३, १४; आगृ १, ७, १९; कौसू ४६, ४१ ^d .	६, ५. अस्यमान- √अस् (क्षेपणे) द्र. अस्यवामीय- हृत्- , हेति- इदम्- द्र.	असु ^e - पाठवृ ४, १०२. अ-स्युत- तम् पाठ १, १६, १८ ^f . अ-स्युत-हार्य ^g - र्यम् आमिष्ट ३, ५, ५: १.
मा-वत्- पावा ५, २, ३९; -वते श्रुपा ८, २७ ^h .	?अस्याः ⁱ कौट ३, २, ६ ^j .	†अ-स्येधत्- -धता शुपा ३, ५०. †अ-स्येमन् ^k - -मा अप ४८, ६२ ^l ; निघ ३, ८; -माणम् आपश्रौ ५, ११, ६; बौश्रौ २, १६: ३५; वाश्रौ १, ४, २, १६; हिश्रौ ३, ३, ४७.
†वयम् ^m आश्रौ १, ३, २२; शाश्रौ १, ६, ६; काश्रौ २, १, ३; आपश्रौ १, ४, ९; १३, १८, १० ⁿ ; बौश्रौ १, २: १३; भाश्रौ ६, २, ४; माश्रौ १, १, १, ३९; वाधूश्रौ ३, १: ९; वैश्रौ १, ८: १६; हिश्रौ ५, ४, ७९; लुसू १, ४: २६; कौट १, ८, २०; २०, ६; पा ७, २, ९३.	अ-स्यूत-> °त-नासि (का>) क- -काभ्याम् बौध २, २, ७४; ३, २, २. १अस्त्र ^o - (>आस्त्रायण- पा.) पाग ४, १, ९९; पाठवृ २, १३. २अ[.आ]स्त्र ^p - पाग ३, १, १८ ^q ; ५, २, १३ १ ^k ; ६, २, १७० ^r ; १७१ ^s . आ[.आ]स्त्र-जात- पा ६, २, १७१. √आ[.आ]स्त्राय पा ३, १, १८. आ[.आ]स्त्रिन्- पा ५, २, १३१.	अ-स्व ^v - स्वे ऋत ३, ५, ७. अ-स्व-काल-त्व- -त्वात् मीसू ११, ३, ७. †अ-स्व-ग ^t - -गम् अअ १२, ५(५). †अस्वग-ता- -ता अअ १२, ५ (५); अप्रा ३, ४, १
अ-स्मरत्- -रन्तः लाश्रौ ९, २, ७. १-२अस्माक- अस्मद्- द्र.	अ-स्त्रवणा(अ-अ)र्थ, धा ^u - -र्याम् आपश्रौ १७, २४, १२ ^m ; हिश्रौ १२, ७, २३; -र्थे आपश्रौ १७, २४, ११ ^m ; बौश्रौ २५, ३०: १०; हिश्रौ १२, ७, २२.	अ-स्व-तन्त्र, न्त्रा ¹ - -न्त्रा वाध ५, १; गौध १८, १; -न्त्रा: शंघ २७०; -न्त्राणाम् शंघ ३४१. अस्वतन्त्र-त्व- -त्वात् पावा १, ४, ५४. अस्वतन्त्र-प्रयोजकत्व- -त्वात् पावा १, ४, ५५.
अ-स्मृत, ता- -तम् आपश्रौ १०, १३, १७; वैताश्रौ १२, ८; ९; निस् २, १: २२; २३; ३०: ३७; ३८; आपमं २, ५, २; कागृ ४१, २३; -ताम् निस् २, १: ३९.	अ-स्त्राम, मा ⁿ - -मः अअ १, ३१; -माम् ^o द्रागृ २, २, २०; गोगृ २, ६, ६.	अ-स्व-तन्त्र-ता- -ता विध २५, १२. अ-स्वधा-युक्त- -क्तानि आमिष्ट ३, ४, १: ४.
अ-स्मृति- -ति ^r वैताश्रौ १२, ५; १६, ८; कौसू ६, २; ४६, २४; अप्राय ३, ४; अप ३७, १२, १; १४, ४; १६, १; अअ ७, १०६; -तौ काश्रौ २५, १३, १८.	अ-स्त्रावित- -तम् वैध २, ४, ५ ^p . †अ-स्त्रिध ^u - -स्त्रिधः माश्रौ ५, २, ७, ५. †अ-स्त्रीवि ^v - -वयः शुपा ४, ८६; -विः ^r आपश्रौ १६, २८, १; वैश्रौ १८, २०: १६; हिश्रौ ११, ७, ६५.	अ-स्वपत्- -पन् आश्रौ ८, १४, १०; ११; सु २४, २; बौध ४, ५, ५; -पन्तः आगृ ४, ६, १७ ^h .
अस्य, अस्यत्- √अस् (क्षेपणे) द्र. अ-स्यन्दन- -नम् वृदे ६, १३८; या		

a) पां. पृ ४६८ f¹ टि. द्र. । b) मा इति C. शोधः । c) पां. पृ ४६८ i¹ टि. द्र. । d) वैप १ द्र. । e) पां. वैप १ युजा मा २१, १८ टि. द्र. । f) वा. किवि. । g) पाठः? स्याः इति शोधः (तु. पृ ४४८ q) । h) =ऋषि-विशेष- [पा.], =रुधिर- । व्यु. ? । i) =अश्रु- । व्यु. ? तु. वैप १; वैतु. P.W. प्रभृ. < √अस् [क्षेपणे] इति । j) आस्त्र- [स्वार्थे प्र. द्र.] इति [पक्षे] भाण्डा. । k) आश्र- इति आस्त्र- इति च [पक्षे] भाण्डा., आश्र- इति पाका. । l) विप. । तस. > बस. । m) अश्रु इति पाठः? यनि. शोधः (तु. बौश्रौ. C. च) । n) उप. व्यु. ? । वैप १ द्र. । o) उप. =म्लाना-, शुष्का- । p) आस्त्रा इति मूको. । q) वैप १, परि. च द्र. । r) पां. वैप १ परि. अस्त्रीवयः मा १४, १८ टि. द्र. । s) =अश्रु- । t) पां. वैप २, ३३३. अस्तुतसू मंत्रा १, ५, १८ टि. द्र. । u) तस. उप. =जलप्रवाहेण क्षरणातील- । पां. पृ ४१२ m द्र. । v) उप. =स्वाक्षर- (सवर्ण-)

†अ-स्वप्न^१- -मः पाण्ड ३, ४, १७^२;
माण्ड २, १५, १.
अ-स्वप्नञ्ज^३- -मञ्जौ या १२, ३७^४.
अ-स्व-प्रधान^५- -नाः बौध्रौ २, ३ :
१२.
अ-स्वप्न्यत्- -प्यन्तम् काश्रौ ७, ४,
३५.
अ-स्वयं-कृत^६- -ते गौध १०, ५.
अ-स्वयं-दृष्ट^७- -ष्टे ऋत ४, ५, ७.
अ-स्वयं-पृष्ट^८- -ष्टे या १, ५.
अ-स्व-योनि^९- -निभ्यः निस् २,
११ : ७; -नौ शाश्रौ ११, १३,
२१; ३३; १४, ६.
अस्वयोनि-भाव- -वे आश्रौ ७, ५, ६.
अ-स्वर^{१०}- -रः अप ४७, ३, २; -रौ
वैताश्रौ २६, ४१.
अ-स्वर-पूर्व^{११}(व)र्वा^{१२}- -र्वाः शुप्रा ४,
१०६.
अ-स्वर-विकार- -रे शुप्रा ४, १०२.
अ-स्वरिता(त-अ)र्थ- -र्थम् पावा
१, २, ३२.
अ-स्वर्ग- -र्गः वाध १, २७.
अ-स्वर्ग्य- -र्ग्यम् गौध २१, २०.
अ-स्व-स्तोत्रीय^{१३}- -यम् द्राश्रौ ६, १,
२२; लाश्रौ २, ९, २०.
अ-स्व-स्तोम^{१४}- -मानि निस् ६, ९ : ५.
अ-स्व-स्थान, ना^{१५}- -नानि निस् ६,
५ : १७; २३; -नासु लाश्रौ ८,
९२.
अ-स्व-स्थान-स्थ^{१६}- -स्थान् गोण्ड
४, ७, २३.
अ-स्वा(स्व-अ)ङ्ग- -ङ्गम् पा ६, २,
१८३.

अस्वाङ्ग-पूर्व-पद- -दात् पा ४, १,
५३.
अ-स्वातन्त्र्य- -न्त्यात् शंघ २७१.
अ-स्वामिक^{१७}- -कम् गौध १०, ३५.
अ-स्वास्थ्य- -स्थ्यम् अप ३६, ८, ४.
अ-स्वाहाकार^{१८}- -राः आपश्रौ १४,
१५, ३; हिश्रौ १०, ७, २५; -रैः
हिण्ड १, १०, ७.
अ-स्वाहाकृत्य काश्रौ २५, १०, १८.
अ-स्विन्न- -न्नम् वैण्ड ४, ५ : १३.
✓अह् पाधा. स्वा. पर. व्याप्तौ.
अह^{१९} आश्रौ ९, ८, ३१; शाश्रौ १२, १८,
११^{२०}; २०, ४१^{२१}; १४, ५०, ११^{२२};
बौध्रौ ६, ६ : २०; १३, १३ :
२१; १४, ३ : १३; ७ : ८; १८;
२८; २७ : ५; २३, ७ : ६;
२६, २८ : ११; माश्रौ १, ५, ६,
२०; ५, १, ७, १६; हिश्रौ
११, ३, २४^{२३}; ऋअ २, १,
६^{२४}; वृदे २, १३९^{२५}; ऋअ
२०, ४०; ६९; या १, ४; ५^{२६};
१३, १३^{२७}; शुप्रा ६, २१; अप्रा
१, १, २७^{२८}; भासू २, ८; पा
८, १, ६१; पाण्ड १, ४, ५७.
अह- अहन- द्र.
अहं-यु- प्रमृ. अस्मद्- द्र.
अ-ह-कार^{२९}- -रेषु ऋप्रा ५, ५३.
अहं-कार- ऋस्मद्- द्र.
अ-हत, ता- ऋतः आपश्रौ १२, १०,
२; हिश्रौ ८, ३, ९; -तम् शाश्रौ
४, १५, ४; १६, ९; काश्रौ;
-तस्य आश्रौ ६, १०, ६; भाण्ड
२, २१ : १२; -ऋताः माश्रौ १,

६, ४, २१; वाश्रौ १, ५, ५, ७; पाण्ड
३, २, २; जैण्ड २, ३ : ६; -तानाम्
बौण्ड १, ७, १०; शंघ १७३; -तानि
द्राश्रौ ११, ४, १६; बौण्ड १, २, ३;
गोण्ड ३, ९, १३; -ताम् माश्रौ
१, १, १, १२; -ते काश्रौ ४, ७,
१२; आपश्रौ; -तेन आश्रौ ८,
१४, १०; आपश्रौ; -तैः बौध १,
६, ४; काण्ड ५७, २; -ऋतौ वाश्रौ
३, २, ७, ४५; ८, ३.
अहत-चण्डातक^{३०}- -कैः आपश्रौ
१५, ३, १६; भाश्रौ ११, ३, ९.
अहत-पक्ष^{३१}- -क्षेण काश्रौ २१, ३, ७.
अहत-वसन, ना^{३२}- -नः कौसू ८, १;
१८, ५; ४१, १६; ९४, ९;
-ना कौसू ६९, ४; -नौ अप
१९, १, ३; कौसू ६७, १७;
१४०, ४.
अहत-वस्त्र^{३३}- -स्त्रेण अप ६, १, ३.
अहतवस्त्र-(ज)जा- -जा
विध ७९, ४; -जाम् शंघ २३५.
१अहत-वासस^{३४}- -ससा द्राण्ड ३, १,
२२; -सोभिः अप १७, २, ९.
२अहत-वासस^{३५}- -ससः काश्रौ २१,
४, २३; पाण्ड ३, २, ६; आमिण्ड
३, ४, ४ : १८; -ससम् शाण्ड १,
२२, २^{३६}; वौण्ड १, १, २४^{३७};
-ससौ बौश्रौ २, १ : २७; १५,
२ : २०; २४, १४ : ९; हिश्रौ १०,
५, ३१; शाण्ड १, २५, २^{३८}; -साः
काश्रौ ५, १, १७; आपश्रौ ५,
२३, ३; वैश्रौ १, १, ७ : ४;
बौण्ड १, १, २४^{३९}; माण्ड २, १, ३;

- a) वैप १, परि. च द्र. । b) विप. । तस. > बस. । c) विप. । तस. (पा २, १, २५) । d) विप. ।
बस. । e) विप. । बस. > कस. । f) तस. > कस. > उम. । g) वैप १ द्र. । h) तु. वैप १,
५८० e । i) तु. वैप १, ५८० c । j) शोषार्थं पृ ३८३ i द्र. । k) कस. उप. = वल्ल-विशेष- । l) षस.
उप. = एकदेश- । m) कस. । n) सपा. °ससम् <> °वासिनीम् इति पाठे. । o) °ससाम् इति पाठः ? यनि.
शोषः । p) सपा. °ससौ <> °सिनौ इति पाठे. । q) °सः इति पाठः ? यनि. शोषः ।

६,३; कौस् ९,८; अप ६, १, २;
१७,२,१; ६६, २, १; अशां १,
१; १५,६.

अहत-वासिन्- -सिनौ कौट १,
१७,२^b.

अहतवासिनी- -नीम् कौट १,
१४,२^c.

अहतां(त-अं)शु(क >)का^e- -का:
कप्र १,८,४.

अहता(त-आ)स्तरण^d- -णम् कप्र ३,
९,१४.

अहतो(त-उ)त्(र >)रा^e- -रायाम्
जैगृ १,७ : ४.

अ-हत्वा गौघ २२,१०.

अहन्->अह->अहीन^f- पावा
४,२,४३; -नः काश्रौ १२,१,४;
आपश्रौ १०, १, ३^g; २१,१,३;
बौश्रौ २६, १ : २; ३ : १८; १२ :
१-३; ५; २२ : १; भाश्रौ ३, ६,
११^h; वाश्रौ १, ३, ६, १३^h;
कौश्रौ १२, १ : ७; ९; हिश्रौ १६,
१, ३, १७, ६, ६; जैश्रौ १ : ३; ६;
७; वताश्रौ ४२, १७; निस् ३, ७ :
१४; ७, ६ : ६; ८, ११ : २८;
९, ५ : २२; ६ : १५; ८ : ८^h;
२०; ३४; ९ : १; २; ४७; मीस्
३, ३, १५; ८, २, २५; -नम्
बौश्रौ ९, १६; १७^h; निस् ८, १ :
६; ३१; विध ५४, २५; -नस्य
काश्रौ १२, १, ५; ६; आपश्रौ ११,
४, ७; बौश्रौ २६, २२ : २; वाश्रौ
३, २, १, १; वैश्रौ १४, ३ : १०;
हिश्रौ १६, १, १३; १४; वैताश्रौ
१३, १; १५, ६; निस् ८, ९ :
१२; आगृ १, २३, २०; मीस्

१०, ५, ५५; -नाः आश्रौ ९, १,
९; १०, १, ११; ५, २; शाश्रौ
११, १, ३; १६, १९, १; २०, ८;
३०, १२; काश्रौ २३, १, १; ४,
२९; आपश्रौ २२, १४, १; बौश्रौ
२४, ५ : ८; २६, १२ : ४; २० :
१; ५; हिश्रौ १७, ६, १; लाश्रौ
९, ५, १; ६; वैताश्रौ ४२, १२;
१४; निस् ८, १ : १; ९, ६ : २३;
८ : १; ९ : ११; १६; २०; ३८;
४८; ५४^h; -नात् निस् ८, १ :
३१; ९, ९ : ४७; -नानाम् आश्रौ
४, ८, १५; काश्रौसं २७ : १;
बौश्रौ २४, ५ : ८; -नानि निस्
९, ९ : ६; -ने काश्रौ १२, ६,
२२; आपश्रौ २१, १, ४; १६;
५, ९; २३, २, ७; बौश्रौ २, १ :
१६; १९, ५ : ३३; ९ : ८; वाश्रौ
३, २, १, ३५; २, ८; हिश्रौ
१६, ६, ३; २३, २, ५०; द्राश्रौ
१५, ३, २२; लाश्रौ ५, १२, ७;
वैताश्रौ १७, ६; निस् ८, १ : १३;
७ : १२; आमिगृ ३, ९, ३ : २८;
बौशि २, ७, २२; मीस् ६, ६, २३;
१०, ६, ६२; -नेन निस् ९, ९ :
१३; ३२; -नेभ्यः निस् ६, ७ :
४६; -नेषु आश्रौ ७, १, ८; ११,
१, ५; शाश्रौ ११, १, ५; १४,
१, १; आपश्रौ १४, ७, २१; २२,
१, १^h; हिश्रौ ९, ८, ४६; १७, ६,
५; द्राश्रौ १, ४, १४; ६, ४, १४;
९, २, ९; ४, २६; लाश्रौ १, ४,
१०; २, १२, १५; ३, ६, ८; ८,
१७; ६, ९, १६; ९, ७, १; निस्
३, ७ : १; १६; ८ : १९; ८, ४ :

१८; ९, १३ : १५; १०, ७ :
१७; -नैः छुस् २, १६ : १९.

आहीनिक^h- -कः छुस्
२, १० : ३; ७; -कम् निस् ९, ९ :
४३; -काः निस् ३, ७ : १५;
-कानि लाश्रौ ६, ९, १७; निस्
८, ३ : ६; ९ : १०; १० : २२; ९,
१ : ४; ९ : ४; -के निस् ९, ४ :
८; -केभ्यः निस् ८, ११ : २२.

आहीनिकी- -की
निस् ८, ५ : ९; १४; -क्यः लाश्रौ
९, ९, ३; -क्याः निस् ८, १ : ५.

आहीनिक-तन्त्र^d-
-न्त्रागि निस् ८, ५ : ७; ९, १ :
५; -न्त्रान् निस् ९, ७ : २२.

अहीन-कृति^e- -तौ निस् ९,
७ : १०.

अहीन-तन्त्र^d- -न्त्रागि लाश्रौ
६, ९, १०.

अहीन-व्यह^f- -हम् निस् ८,
१२ : ३.

अहीन-त्व- -त्वम् मीस् ८,
२, २७; २९; १०, ६, ६१.

अहीनत्व-दर्शन^f- -नात्
मीस् ८, २, २९.

अहीन-न्याय^f- -यः निस् ८,
८ : २१; ११ : ११; -यम् द्राश्रौ
४, १, १७; लाश्रौ २, २, ५; -येन
निस् ८, १३ : ५; ९, १ : १७.

अहीन-बहिष्पवमान^f- -नैः
द्राश्रौ ४, १, १३; लाश्रौ २, २, १.

अहीन-भूत^f- -ते हिश्रौ १६,
२, १८; -तेन आपश्रौ २२, १४,
२; हिश्रौ १७, ६, २; लाश्रौ १०,
१, १२.

a) विप. । उस. उप. < ✓ वस् [आच्छादने] । b) पाभे. पृ ४७० Q द. । c) पाभे. पृ ४७० O द. ।

d) कस. । e) विप. । बस. । f) वैप १ द. । g) =सोमयाग-विशेष- । समूहेऽर्थे तेननिर्णीयैः प्र. ।

h) तत्रभवीयश् ठञ् प्र. (पा ४, ३, ६८) । i) षउ. । j) सस. (तु. अग्निदशमी- [लाश्रौ.]) ।

अहीनभूत-प्रवृत्ति^a - -त्तिः
मीस् ८, २, २६.
अहीन-याजक^b - -काः निस्
५, १३ : ६.
अहीन-रात्रि^c - -त्रिः लाश्रौ
९, ७, १.
अहीनरात्रि-सत्र^d - -त्राणि
बौश्रौ २३, ११ : १६; -त्रेषु
बौश्रौ २६, ३० : २.
अहीन-लिङ्ग^e - -ज्ञानि लाश्रौ
१०, १, १२.
अहीन-वचन^f - -नात् मीस्
८, २, ३०.
अहीन-वत् मीस् ३, ४, १४.
अहीन-वाद^g - -दाः निस् ९,
९ : २९.
अहीन-वि(धा >)ध^h - -धः
बौश्रौ २६, ३३ : २३.
अहीन-विधिⁱ - -धिः बौश्रौ
१६, ३२ : ३; १८, ५१ : १८.
अहीन-संस्था^j - -स्था निस्
८, ११ : १०.
अहीन-संतति^k - -तयः
आपश्रौ २१, १३, २; ३; हिश्रौ
१६, ५, ७^l; ९; -त्तिः बौश्रौ १६,
३ : ८; १७, ५७ : १०; २६, १२ :
१७; -तिम् बौश्रौ १५, १८ : १६;
३२ : ६; ३६ : १३; १६, ३ :
१९; २१; २४; ४ : ५; १२; ५ :
२१; २५ : ६; १२; २०; १७, ५६ :
१३; ५७ : १५; २६, १३ : ३;
१८ : १३; १९ : ३; २५ : ३;

२७ : १६.

अहीन-सूक्त^m - -क्तम् आश्रौ
७, ४, ९; शाश्रौ १२, ३, १४; २०;
४, १८; ५, १७; वैताश्रौ २७,
१४; २४; ३१, १९; ३३, १२;
-क्तस्य शाश्रौ १२, ४, २०;
-क्तानाम् आश्रौ ९, १०, १३;
शाश्रौ १२, ६, ४; ८, ४; -क्तानि
आश्रौ ७, ४, ११; ८, ४, १६; १७;
९, १०, ५; शाश्रौ १२, ६, १८;
-क्ते आश्रौ ७, ४, ८; -क्तेभ्यः
शाश्रौ १२, ६, १९.

अहीनसूक्त-स्थानⁿ - -ने
आश्रौ ७, ५, २०.

अहीना (न-अ) नुदेश्य->
°द्वय-न्यस्तात्विज्य-नीतदक्षिण^o-
-णानाम् शाश्रौ ५, १, १०.

अहीना(न-अ)न्त^p - -न्तेषु
निस् ८, ३ : २९; ४ : ७; १२.

अहीना(न-अ)भिपरीत^q -
-तानि बौश्रौ २६, २० : ६.

अहीना (न-अ) हीन^r - -नः
निस् ९, ९ : ४०; ४३.

अहीना (न-अ) ह^s - -हः
निस् ८, १० : ४३; ११; ५; २१.

अहीनै(न-ए)काह^t - -हः आश्रौ
८, १३, ३१^b; -हाः आश्रौ ९, १,
१; लुस् २, १६ : १८; निस् ५, ५ :
३२; -हान् आश्रौ ८, १३, ३५;
-हानाम् काश्रौ २४, ७, १६;
-हाभ्याम् निस् ८, ५ : १७;
-हेषु आश्रौ ५, १३, ११; जैश्रौ

२५ : १; निस् ५, १३ : ७; -हैः
आश्रौ ४, १, ७, आश्रु १, २३, ४.

अहीनैकाह-समास - -सम्
लाश्रौ ६, ९, १८; -साः निस् ३,
७ : २०.

अहीनैकाहा(ह-आ)दि^u -
-दौ लाश्रौ ९, ६, २०.

अहन्- पा ६, ३, ११०; ८, २, ६८;
-हन् शाश्रौ ८, १८, ११; १६,
२२, १५; काश्रौ; -हनि आश्रौ ४,
१२, २१^v x x; शाश्रौ; या ६, १९;
पा ४, ४, १३०; पावा ५, ३,
२२^w; -हनि-ऽहनि माश्रौ ४, ३,
२; ४९; वाश्रौ ३, २, १, ३५;
विध ५५, १६; या ४, १९;
-हनी आश्रौ ७, १०, १; १०,
४, ५; शाश्रौ; या ३, २२^x कृ; -
हभिः या ७, २३^y; -हह
आश्रौ २, १७, १५; ३, ७, १२;
या १२, २३^z; -हानि आश्रौ
८, १३, ३१ x x; शाश्रौ; या
४, ७^{aa}; ५, ४; ६, २६; १२,
२३; -हः आश्रौ ४, ६, ३ x x;
शाश्रौ; आपश्रौ १२, २०, ९^{ab}म्;
बौश्रौ ३, २३ : ५^{ac}म्; ७, १० :
१६^{ad}म्; हिश्रौ २१, १, २^{ae}म्,
निघ १, ९; या १, ६; ३, २१^{af};
१४, ९; पा ५, ४, ८८; ६, ४,
१४५; ८, ४, ७; पावा १, १, ६३;
४, २, ४३; ५, ४, ८८^{ag}; ८, २, ७;
६८; -ह्वा ऋआश्रौ २, २, ३ x x;
शाश्रौ; याशि २, ११४^{ah}; -ह्वाऽ-ह्वा

a) षस. । b) मलो. कस. । c) विप. । बस. । d) °सन्तयः इति पाठः ? यनि. शोषः (तु. आपश्रौ.) ।

e) =सूक्त-विशेष- । मलो. कस. । f) द्रस. (तु. बौश्रौ २४, १३ : ३-५) पूष. तृस. । g) विप. (सत्र-) । तृस. ।

h) =अहीन-विशेष- । i) षस. समासान्ते टचि अहोदेशः (पा ५, ४, ९१; ८८) । j) द्रस. पूर्वनिपातः (पा २,
२, ३१ । तु. आश्रौ. भाष्यकारः ।) । k) पाभे. वैप १ परि. अहन् मै ३, १६, ४ टि. द्र. । l) पाभे-
वैप १ परि. आहः शौ १३, २, २२ टि. द्र. । m) पाभे. वैप १ परि. अघ्रु तै ३, २, ४, ४ टि. द्र. । n) ऋटिति
इत्यं वा. क्रिवि. ।

बौध ३४१†; -†हाम् आश्रौ
३, १, ९; ४, १२, २^५××;
काश्रौ; बौश्रौ १४, १३ : २२?†;
२४!†; या ८, ९; ११, ६; -ह्रि
बौश्रौ १०, ३७ : १××; हिश्रौ;
-ह्रे आपश्रौ ४, १, ८†××; बौश्रौ
२०, १ : २८†; आश्रौ ४, १,
११†; हिश्रौ १, २, ५†; -ह्रोः
शाश्रौ १०, ९, १५××; काश्रौ.

अह्ना- पा ४, १, ४५.

आह्न- पा ४, २, ४५; ७५.

आह्निक^१-कम् शां ६, ४,
१०; शंघ ४५३; विघ ८, १७;
वैध २, १०, ४.

अहन्-ग्रहण- -णात् पावा ८,
२, ७.

अह्न^०-ह्रः पा ५, ४, ८८; -ह्रस्य
पा ६, ३, ११०; -ह्राय निघ
३, २७†; पाग १, ४, ५७†.

अह्न-वचना (न-आ)नर्थक्य-
-क्यम् पावा ५, ४, ८८.

अह्नां-रूप^२- -पाणि आपश्रौ १७,
७, ४.

अहर्-हः आश्रौ १, २, १××;
शाश्रौ; आपश्रौ १६, ११, ५^५;
वैश्रौ १८, ९ : ५^५; हिश्रौ ११, ४,
६^५; हिगृ १, १५, ३?†; बौध ३,
९, २०†; या २, २०†; २१†; ४,
११; ६, ४; १९†; २२; ३६; १२.

२३†; १४, ४†; ९; -हः-ऽहः
आश्रौ १, ३, ३२××; शाश्रौ.

?अहः-शान्तः^३ भागृ २, ३२ : ३;
हिगृ १, १४, २; १७, ६.

अहर्-अन्त^१- -न्तात् मीसू १०,
६, ३६.

आहरन्ति(क>)की^३- -की
दाश्रौ १, ४, १३; लाश्रौ १, ४, ८.

अहरहश्-चयन- -नस्य बौश्रौ
१७, २४ : १.

अहरहश्-चिति- -तौ बौश्रौ २३,
१५ : १२.

अहरहः-शस्य- -स्यम् आश्रौ ७,
४, ८; -स्यस्य आश्रौ ८, ४, १३;
-स्यानि आश्रौ ७, १, १५; ८,
४, १५; -स्ये आश्रौ ७, ४, ९.

अहरहः-शुन्ध्युर^४-वर्जम् उस् ७,
१४.

अहरहस्-तन्त्र- -न्त्रम् आपश्रौ
२१, ५, ६.

अहर्-आदि- -दीनाम् पावा ८,
२, ७०.

अहर्-आद्य(दि-अ)न्त^०-
-न्तयोः दाश्रौ १, ४, १२; लाश्रौ
१, ४, ८.

अहर्-आवर्त-कारिन्^५- -रिणः
लाश्रौ ४, ७, ५^५.

अहर्-आवृत्त-कारिन्^५- -रिणः
दाश्रौ ८, ६, २४^५.

अहर्-उपवास- -सः बौध २,
४, १६.

अहर्-गण^१- -णः आश्रौ ७, २,
७; काश्रौसं ३४ : २; बौश्रौ २५,
१९ : ६; २६, २० : १; -णस्य
निसू ६, ३ : ६; -णाः बौश्रौ २४,
५ : ९; माश्रौ ४, ५, ११; लाश्रौ
९, ५, ६; निसू ९, ९ : ५२;
-णान् निसू १०, २ : २;
-णानाम् आपश्रौ २४, ४, ४;
बौश्रौ २४, ५ : ९; -णे काश्रौ
१, ७, ६; १०, १, १७; १३, ४,
२६; २२, ११, २६; २५, ११,
१३; बौश्रौ; -णेषु आश्रौ ८,
१२, ८; आपश्रौ १४, २१, ११†;
बौश्रौ; -णैः निसू १०, ३ : २९.

अहर्गण-न्याय^१- -येन निसू
८, ४ : ६.

अहर्गण-प्रत्यवाय- -यः निसू
९, ११ : ६.

अहर्गण-मध्य-गत- -ते
आश्रौ ७, १, १७.

अहर्-ग्रहण^१- -णम् पावा ५, ४,
८७.

?अहर्ग्रहणरात्रिचरा आश्रौ ५,
१८.

†अहर्-जर^१- -रम् बौध २, ६,
१३; कौसू ५६, १७.

?अहर्जात्र^१- -त्रे निसू ९, ७ :

a) पाभे. वैप १ परि. अह्ना मै ३, १६, ४ टि. द्र. । b) °हाम् इति पाठः ? यनि. शोधः द्र. (तु. तै ३,
३, ८, ४) । c) पाभे. वैप २, ३ खं. अह्ने तैत्रा ३, ७, ४, ३ टि. द्र. । d) विप. । तेननिर्वृतमित्यर्थे ठञ् प्र. (पा ५, १,
७९) । e) टजन्तस्याऽनुकरणम् (तु. पाका २, ४, २९) । f) पुराण- इत्यर्थे वा. क्वि. । g) शीघ्रार्थे अय्य. (तु.
पागम.) । h) =इष्टका-विशेष- । i) अहर्द्यौः इति पाठः ? अहम् द्यौः इति शोधः (तु. पागृ ३, १३, ५; Böht
[ZDMG ५२, ८४] च) । j) आरम्भकालः इति कासं. । k) पाठः (तु. संस्कृतां?) । अहः, शान्तः इति
Böht [ZDMG ५२, ८४] । अहःशान्त-> -न्तम् (क्वि.) दिनसमाप्तिपर्यन्तम् [ब्राह्मणैकसंभाषी स्यादिति तात्पर्यम् ।]
इति शोध इति मतम् । l) षस. । m) तात्रभविकः ठञ् प्र. उसं. (पा ४, ३, ६७) । n) द्वे पदे
(द्र. ऋ ८, २४, २४) । o) षस.>दस. । p) षस.>उस. । q) सपा. °वर्तका<>°वृत्तका° पाभे. ।
r) वैप २, ३ खं. द्र. । s) अर्थः व्यु. च ? ।

१५; -त्रेण निस् ९, ५ : ३२.
 अहर्-दिव- पा ५, ४, ७७.
 †अहर्-दृश^a- -दृशः या ६,
 २६०.
 अहर्-नामन्^b- -म या ६, १९;
 -मानि निघ १, ९; या २,
 २०.
 †अहर्-पति^c- पावा ८, २, ७०;
 -तये शुभा ३, ३९.
 अहर्-पुत्र- पावा ८, २, ७०.
 अहर्-भाज- -भाजः निस् ९,
 ८ : १७; -भाजि लाश्रौ ६, २,
 २३; ७, २०.
 अहर्-मुख^d- -खम् आमिगृ २, ७,
 ६ : १.
 अहर्-याग^e- -गम् निस् ८, ४ :
 ३४.
 अहर्-योग^f- -गः शांश्रौ १३,
 १९, १७; २४, १९; निस् ८, ७ :
 २; -गे शांश्रौ १३, १, ४.
 अहर्-विपर्यय^g- -यम् आश्रौ ९,
 ३, ६.
 अहर्-व्यत्यास^h- -सम् काश्रौ
 १६, ६, ५.
 अहस्- -हःसु आश्रौ ५, १२,
 १२××; बौश्रौ; हिघ २, ५,
 ७^d; या ४, ७; -हस्सु निस्
 ५, ५ : २३; ८, ५ : २७; ९,
 ४ : ३०; १० : ११; आमिगृ;
 आपध २, १६, ७^d; -होभिः आश्रौ
 ९, १, २; शांश्रौ; -होभ्यः आश्रौ
 ८, १३, ३५; काश्रौ ६, ६, ६^e; क्षुस्
 १, १ : २२; निस् ६, २ : १३;
 -†होभ्याम् आश्रौ ११, ७, ५;

बौश्रौ ४, ६ : ५३; वैश्रौ १०,
 १४ : १२; हिश्रौ ४, ४, १२.
 अहः-पति-, अहः-पुत्र- पावा ८,
 २, ७०.
 अहः-पूर्वⁱ- -वाणि अप १, ५, १.
 †अहर्-चर- -रेभ्यः^k कौगृ ३,
 १०, १८; शांगृ १, १४, १६.
 अहः-श-शेष- -यम् आगृ १,
 १८, ७; २२, ११; कौगृ २, ६,
 १; शांगृ २, ७, २९; पागृ २, ५,
 ८; आमिगृ ३, ५, २ : १०; बौपि
 १, २ : १३; गौगृ २, १०, ४१;
 कागृ ४१, २६; जैगृ १, १७ : ११;
 -वे शंध ३५२.
 अहस्-कर- पा ३, २, २१; पाग
 ८, ३, ४८.
 अहस्-पति- > †आहस्पत्य^h-
 -स्यम् गोगृ २, ८, १४.
 अहः-संयोग- -गः बौश्रौ २६, ९ :
 १९.
 अहः-संस्थाⁱ- -स्थासु लाश्रौ
 १०, ५, १३.
 अहः-संख्या- -ख्याम् बौश्रौ
 २९, ४ : १४.
 अहः-संघात- -तः शांश्रौ १६,
 २०, ३; -तेषु शांश्रौ १०, १, २०;
 १२, २, १.
 अहः-संचारण- -गम् निस् ७, ८ :
 २८.
 अहः-सर्वै^j(र्व-ए) कदेश-संख्यात-
 पुण्य- -णयात् पा ५, ४, ८७.
 अहः-सवन^k- -नानि निस् ३, ५ :
 २३.
 अहःसवन-भाग^l- -गाः निस्

९, ८ : १७.
 अह-स्तोम^m- -मम् निस् ८, ३ :
 १७; २१; -माः निस् १०, ७ :
 १८.
 अहो-रथन्तर- पावा ८, २, ६८.
 अहो-रात्र^k- पा ५, ४, ८७;
 -त्रः पावा ८, २, ६८;
 आपश्रौ ६, ४, ७; बौध ३,
 १०, १६; विध २०, ३;
 गौध १९, १८ⁱ; -त्रम् बौश्रौ
 २१, १३ : ३३; कौगृ; -त्रयोः
 बौश्रौ २४, २९ : ५; वाधूश्रौ;
 -त्रस्य भाश्रौ ५, १३, ११; -त्राः
 शांश्रौ १४, ७९, २; वाधूश्रौ;
 कौगृ ३, १५, ५^m; शांगृ ३,
 १३, ५^m; या ४, २७ⁱ; ५,
 ११; -त्रागाम् विध २०, १९;
 -त्राणि बौश्रौ १४, १९ : ९;
 १०; आगृ; -त्रात् शंध ३६०;
 -त्रान् वाधूश्रौ ४, १९ : ३४;
 आपध; -त्राभ्याम् बौश्रौ २८,
 ४ : १७; वाधूश्रौ; -त्रे शांश्रौ १६,
 २०, २; आपश्रौ; या ३, २२; ८,
 १५; ९, ४१; ४२; पा २, ४, २८;
 -त्रेण विध २०, १५; २२, २९;
 -†त्रेभ्यः कौगृ ३, १०, ९; शांगृ
 २, १४, ८; आमिगृ २, २, १ : ८;
 वैगृ २, १२ : १०; -†त्रैः बौश्रौ
 २, १० : ५^m; आपमं २, १९, ६^m;
 आमिगृ ३, १, १ : १७^m; कागृ;
 बौगृ २, ११, २७^m; भागृ २,
 ११ : १६^m; हिगृ २, १०, ७^m;
 -त्रौ आपश्रौ १९, २६, ५××;
 बौश्रौ.

- a) वैप १, परि. च द्र. । b) षस. । c) षस. वा. क्वि. । d) सप्र. अहःसु <> अहस्सु इति पाभे. ।
 e) पाभे. वैप १ परि. अहोभ्यः मा ६, १५ टि. द्र. । f) विप. । बस. । g) सपा. अहश्चरेभ्यः <> दिवा-
 चरेभ्यः <> दिवाचारिभ्यः इति पाभे. । h) विप. । प्राग्दीव्यतीयः ण्यः प्र. (पा ४, १, ८५) । i) = अहःसमाप्ति- ।
 j) पूष. विसर्गलोपः । k) द्रस. । l) 'हारा' इति पाठः ? यनि. शोधः । m) सपा. 'त्राः <> त्रैः इति पाभे. ।

अहोरात्र-कर्मन्^a- -र्मा या
३, १४.
अहोरात्र-कृत- -तम् वाध
२६, १.
अहोरात्र-प्रतिषेधा (घ-अ)
र्थ- -थेम् पावा ३, ३, १३६.
अहोरात्रयोः (व्रत-)^b द्राश्रौ
२, २, ३८; लाश्रौ १, ६, ३४.
अहोरात्र-विद्- -विदः या
१४, ४.
अहोरात्र-स्तोम^c- -माः शाश्रौ
१४, ७९, १.
अहोरात्र.(त्र-अ)भीज्या^d-
-ज्या निस् २, ५ : ३.
अहोरात्रा(त्र-अ)र्धमास-
मास^e- -साः कौस् १०६, ७१.
अहोरात्रा(त्र-अ)र्धमास-
मास(स-ऋ)र्तु^f- -र्तुषु हिपि
१३:१.
अहोरात्रा(त्र-अ)वयव- -वाः
पा २, १, ४५.
अहोरात्रा(त्र-अ)वसक्त-
-क्तम् हिश्रौ २२, ६, ८; १०^g.
अहोरात्रे(त्र-ई)क्षण^h- -णः
विध १, ४.
अहोरात्रो(त्र-उ)पवास-
फलⁱ- -लम् आमिगृ २, ६, ७ :
३५.
अहोरात्रो(त्र-उ)षित^j- -तः
अप ३८, १, ३; ३९, १, २; ६६,
२, १.

अहोरात्रिक¹-> ^oत्रिक-होम-
-मः अप ६५, ३, ३; -मात् अप
३६, २२, १.
अहो-रूप- पावा ८, २, ६८.
अह(न>)ना¹- -ना शागृ ३, १, ९;
अप ४८, ११०; निघ १, ८.
अ-हन्त(व्य>)व्या- -व्या या ११,
४३.
अ-हन्यमान- -नस्य आपध १, २२,
४; हिघ १, ६, ४.
अहम् अस्मद्- द्र.
अहमनसुहिताभ्याम् वाधुश्रौ ३,
१०३ : १.
अहमहः वाश्रौ ३, ३, ४, ४७.
अहमहर्मिमि हिश्रौ १६, ६, ४१.
अ-हरण- -णे पा ६, २, ६५.
अ-हरत्- -रतः द्राश्रौ १५, १, ११;
लाश्रौ ५, ९, ८.
अ-हरि(क>)का^k- -कासु क्षुस् ३,
२ : २१; द्राश्रौ ७, १, १८;
लाश्रौ ३, १, १८.
अहर्वानिम्¹ लाश्रौ ५, ७, ४१.
अ-हर्ष- -र्षः आपध १, २३, ६; हिघ
१, ६, १४.
अ-हल-, अ-हलि- पा ५, ४, १२१.
अहल्या^m- पाउभो २, ३, ४; -ल्यायै
जैश्रौ ३ : १५; द्राश्रौ १, ३, ३;
लाश्रौ १, ३, १.
अ-हविर्-भाज्ⁿ- -भाजि या १०,
४२.
अ-हविर्-> ^oविर्-याजिन्^o- -जी

आपध १, १८, २९; हिघ १, ५,
९७.
अ-हविष्य- -ष्यम् आपध २, १८, ३;
हिघ २, ५, ५५; -ष्यस्य आपध
२, १५, १६; हिघ २, ३, ५०.
अहविष्ये भागृ ३, १९ : १.
अ-हसत्- -सत् वाश्रौ १, १, १, १५.
अ-हस्त¹- -स्तम् या ६, ११.
अ-हस्त्या(ति-आ)दि- -दिभ्यः पा
५, ४, १३८.
अहादेत(?)सम्^o शाश्रौ १२, १९, २.
अ-हानि- -निः मीस् १०, ३, २६.
अ-हारिन्- पाग ३, १, १३४
अ-हालेय^p- -यम् काश्रौ १०, २, २०.
अहाहा(ह-अ)हृहृ^q- -हृहृ-हृभ्याम्
शाश्रौ ४, १०, १.
अहि¹- पाउ ४, १३८; पाग ४, १,
४५; ६, ३, १२०; -हिः काश्रौ
६, ५, २५; १०, ८, १५; काश्रौ
१३, १८, ७; २०, १६, १२; वाश्रौ
३, ४, ३, ३७१; वौश्रौ ६, ८ : ७१;
२७, ५ : १०; हिश्रौ १०, ५, १;
१४, ३, ३७; आपध २, १७, २७;
काश्रौ २, ३, ३; ३, १२, ११;
पागृ २, १४, ५; कागृ ४९, ११;
भागृ २, १ : १६१; मागृ २, ७, १;
हिगृ २, १६, ८१; कौस् १३९,
८१; अप ४८, ७५; १००; ६८, ५,
९; विध ५५, १३; वृदे ५, १६६^r; ७;
शुश्र १, ३८८१; निघ १, १०;
१२; ५, ४; या २, १७१^r; ६,

a) विप. । बस. । b) =साम-विशेष- । c) नाप. । षस. । d) षस. । e) द्रस. । f) विप. । बस. उप. =नेत्र- । g) सस. > षस. । h) उप. < √वस (अशने) । i) तत्रभवीयः ऋ प्र. उंसं. (पा ४, ३, ११) । j) वैप १ द्र. । k) विप. (L हरिशब्दाऽभाववती-] ऋच्-) । बस. । l) पाठः ? पाभे. वैप १ द्वाहानिम् टि. द्र. । m) वैप २, ३खं. द्र. । n) तस. > उस. । o) पाठः ? शोधार्थं तु. वैप १, ५८५ g । p) तस. उप. हलि- (व्यप.) > गोत्रापत्ये षक् > एयः प्र. (पा ४, १, १२२) । q) द्रस. । पाठः ? अंह-ह- (तु. छन्दः, पाभे. पृ ७r) इति पूष. शोध इति मतम् ।

१७०; २, १५०; १०, ४३; ४४;
-हिना आश्रौ ५, १९, ४०^३; या
२, १७; -हिम् आश्रौ ६, २, ११०;
शाश्रौ ८, २५, १०; हिश्रौ १२,
६, ६०; कौसू २९, ६; ३२, २४;
वृदे ५, १६५; अश्र १०, ४०;
ऋया १०, ४४; १२, ४४; ऋप्रा
२, ४३०; तैप्रा १२, ४०; -हे:
ऋश्र २, ७, ३४; चाश्र ३८:
१८^३; माशि १५, १०; याशि २,
१०१; -हौ पाग ५, ४, ३.
१ आहेय- पा ४, ३, ५६.
अहि-कृत्ति^०- र्या वैगृ ३, १४: ६.
अहि-गोपा^०- पा: या २, १७०^३.
अहि-वात- त: अश्र ५१, ५, २.
अहि-च्छत्रक^०- कम् या ५, १६.
अहि-दैवत^०- त: वृदे ५, १६८.
अहि-भय- ये कौसू ३२, २२.
†अहि-माय^०- या: आश्रौ २, ९,
१४; ३, ७, १०.
अहि-वत् या २, १६.
†अहि-हृय^०- र्ये आश्रौ ५, १४,
२६; शाश्रौ ७, १९, २५.
†अहि-हन्^०- श्रे आश्रौ ९, ५, १६;
-० हन् ऋप्रा २, ७७; उसू २, ७.
अ(हि>)ही-व(त्>)ती- पा ६, ३,
१२०.
†२अहि^०- (बुधिनय-, बुध्नय-) -हये
(-धियाय)आपश्रौ ५, १८, २; हिश्रौ
६, ५, १६; वैगृ ३, २०: १०; ५, २:
३०; -हि: (धिनय:, ध्नय:) आश्रौ
५, २०, ६; शाश्रौ ६, १२, २६; ८,

६, ८; आपश्रौ १, २२, २; ४, २, १;
५, १९, ४; ११, १५, १; १३, १६,
३; बौश्रौ ६, २९: २१; भाश्रौ
४, २, ५; माश्रौ १, ५, ५, १०;
वाश्रौ १, ४, ४, १८; वैश्रौ १,
१५: १; १४, १३: ९; १६, २०:
१; हिश्रौ १, २, ५; ६, ३; ३, ५,
५; १०, ३, ४२; जैश्रौ १३:
२२; द्राश्रौ ४, २, १३; लाश्रौ २,
२, २२; आमिगृ २, ६, ३: ८;
अश्र १, ४, ५५; ४१, ५; ४३, ५,
१३; ४८, १३८५; अशां ११, ५;
बोध २, ५, १९; वृदे १, १२६५;
शुश्र १, ३४८; निघ ५, ४; या
१०, ४५; १२, ३३; ऋप्रा २,
४२; शुप्रा ४, ७८; वेज्यो ३४५;
-हिम् (-धिनयम्, -ध्नयम्) बौश्रौ
१२, ११: ७; वृदे ५, १६५५;
-०हे (-०धिनय, -०ध्नय) आपश्रौ
५, १२, २; १८, २; वैश्रौ १, ११:
१२; १४: १६; बौश्रौ २, १८:
२२; ३, १४: १३; भाश्रौ ५, ११,
७; हिश्रौ ६, ५, १६.
†अहिर-बुध्नय- ० ध्नय^३ माश्रौ १,
६, ३, ७; १४; वाश्रौ १, ४, ४, १;
५, ४, २७; ३६; -ध्नयम् शंघ
११६: ६०^३; -ध्नयाय शांगृ १,
२६, २५; पागृ २, १५, २; ऋश्र
२, ७, ३४.
आहिर्बुध्नय^१- ध्नये विघ ७८,
३२.
†३अहि^१->अही- पा ४, १, ४५;

-ही निघ २, ११; ३, ३०: -अ:
या ४, २५^३.
अ-हिंस^१- ०स आपमं २, १७, ११;
-स: आपमं २, १७, १२.
आहिंसि- पाग २, ४, ६१; ४, २,
१३८.
आहिंसायन- पा २, ४, ६१.
आहिंसीय- पा ४, २, १३८.
अ-हिंसक- कस्य आमिगृ २, ५, १:
५२; जैगृ २, ९: ३८; -कानि
विघ ५१, ६८.
†अ-हिंसत् - सन् पागृ २, ५, ९;
वंगृ ६५: ७; भागृ २, ३१: ८;
-सन्त: आपश्रौ ५, १९, ४; भाश्रौ
५, १२, ६; वाश्रौ १, ४, ४, १५;
हिश्रौ ३, ५, ८.
अ-हिंसन- नम् बोध ३, १, २२.
अ-हिंसा- सया बोध १, ५, २; ३, १,
२३; -सा वाध ४, ४; ३०, ८;
बोध २, १०, ४१; ३, १०, १४;
विघ २, १६; या १, १६; -साम्
विघ ५१, ६७.
अहिंसा(सा-अ)र्थ- र्थस्य पावा १,
४, ५२; ३, ४, ३७.
अहिंसा-सत्य-दाक्षिण्य-शौच-श्रद्धा-
समन्वित- ता: अश्र ७०, १, ५.
अ-हिं(सक>)सिका- का बोध ३,
१०.
अ-हिंसिन्- स्त्री वाध २९, ३.
अ-हिंस्र, स्त्रा- -न्न: गौध ९ ७०; -न्ना
काश्रौ २, २, १०^१म; आपश्रौ ३,
१९, ३; भाश्रौ ३, १६, ३; ४, ६, ७;

a) सपा. तां १, ५, १९ द्राश्रौ ६, २, ११ लाश्रौ २, १०, ११ विशिष्ट: पाभे. । b) =ऋषि-विशेष- । c)
=अहि-निर्मोक- । d) वैप १, परि. च द्र. । e) =ऋवक- । बस. (तु. शक.) ? । f) विप. । बस. ।
g) सप्र. तैत्रा १, १, १०, ३ अहे बुधिनय इति पाभे. । h) अहिर्बुध्नय इति पाठ: ? यनि. शोध: (तु.
अपु २१९, २३) । i) =प्रोष्ठपद-नक्षत्र- । साऽऽस्यदेवतीय: अण् प्र. । j) वैप १ द्र. । k) वैप १, ५८८ b द्र. ।
l) =सर्प-विशेष-, ऋषि-विशेष- । तस. उप. कर्तारि कृत् । m) हिंसा इति पाठ: ? यनि. शोध: (तु. आपश्रौ-
Web. च) ।

हिश्रौ २, ८, १५; ६, २, २; कौसू १३७, ११.	-ने पा ६, २, ४७; पावा २, १, २४.	२५, ४, १०.
१अ-हिं-कार ^a - रम् जैश्रौका ७०.	अहीना(न-अ)ह ^{म्} - -हाः ^k बौपि १, १३ : १४; १५.	†अहुता(त-अ)घ--०घ आपश्रौ ३, २०, ७; बौश्रौ ३, २६; १; भाश्रौ ३, १८, ७; हिश्रौ २, ८, ३७; द्राश्रौ १२, ३, २४; लाश्रौ ४, ११, २२; -घात् वाश्रौ १, १, ५, ५.
२अ-हिं-कार ^b - रे द्राश्रौ ६, ३, २; लाश्रौ २, १०, २३.	अ-हीन-कर्मन् ^c - -मैव्यः गौध १८, ३३.	अ-हुत्वा आश्रौ २, ९, २; ३, १०, ७; शांश्रौ; बौश्रौ.
अ-हिं-कृ(त>)ता- -ता जैश्रौ ११ : १३; जैश्रौका १२२; द्राश्रौ ३, ४, २३; लाश्रौ १, १२, ८; -ताम् द्राश्रौ ११, ४, ४; लाश्रौ ४, ४, ४.	अ-हीन-दृ(त>)ती ^d - -ती बौश्रौ २४, ३८ : ८.	†अहुर ^e - -०र गोगृ २, १०, २५.
अहिच्छत्र- > ञ्र-नागपुर ^f - -रम् अप ५६, १, २.	‡अहीनरा अप १, ८, ६.	अ-हृत- -तः माश्रौ १, ५, ६, १८.
अहिरण्य ^g - -णः याशि २, ७८.	†अ-हुत, ता ^h - -तः आपश्रौ ३, २०, ७; १४, ३०, ४; भाश्रौ; -तम् काश्रौ २६, ६, १३; आपश्रौ; या ११, ३२; -†तस्य शांश्रौ १३, १२, ७ ⁱ ; काश्रौ; -ता गोगृ १, ६, १; -ताः वाधूश्रौ ३, ३० : ४; ६; कप्र २, ९, १०; -तात् †बौश्रौ ४, ११ : १२; १६; २०; १४, १३ : १९; माश्रौ २, ५, ५, २०; गौध २, २; -तानाम् वैश्रौ ८, १; २; कागृ १३, ४; -तानि काश्रौसं ४ : १५†; -तायाम् काश्रौ ८, ९, १२; आपश्रौ; -तासु वाधूश्रौ ४, ११२ : २; -ते आपश्रौ ५, २५, १५; ६, २८, २; ९, ६, ७; ७; बौश्रौ; वैश्रौ २०, १६ : ११ ^j ; हिध २, २, ३४ ^k ; -तेन वैश्रौ २१, १६ : ८; -तेषु आपश्रौ ९, १२, १०; वैश्रौ; आपध २, ७, १५ ^l .	अ-हूयमान- -नः वैश्रौ २०, १५ : ७; ८; -ने कप्र २, ९, ९; -नेषु बौश्रौ २४, ३१ : ८; -नैः बौपि १, १० : १.
अहित, ता ^m - -तम् काश्रौ ५, ५, ८†; आपध १, २२, ६; हिध १, ६, ६; -ता बुदे ८, २९; -ताय अप ७० ⁿ , १, २.	अहिता(त-आ)वह ^o - -हाः अप ५८, १, ६.	†अ-हृणीयमान, ना ^p - -नः बौश्रौ ९, ६ : ६; -ना वाश्रौ १, ५, ५, ७; माश्रौ १, ६, ४, २१; कौसू ११५, २ ^q ; -नाः हिश्रौ १, ७, ४० ^r .
अ-हिरण्य ^b - -ण्ये आपध १, ११, ३४; हिध १, ३, ८५.	अ-हिरण्यव ^s - -वः शांश्रौ १२, २१, २.	अ-हृत- -तः भाशि २५.
अ-हिरण्यव ^t - -वः शांश्रौ १२, २१, २.	अहिसकथ ^u - (> आहिसकथ ^v -पा.) पाग ४, २, ७७.	†अहे ^w आश्रौ १, ३, ३०; काश्रौ.
अही- ३*अहि-द्र.	अहीन- अहन्-द्र.	†अ-हेड(ळ)त्- -डता आश्रौ २, १४, ३१; शांश्रौ ६, १७, १९.
२अ-हीन, ना- -नः वैश्रौ १, १२ : २†; -नम् वैश्रौ ४, १० : ४; अप २५, २, १; २; -नाः(?!)आमिगृ ३, ६, ४ : १६ ^k ; १७ ^k ; हिपि १० : १५ ^k ; -नाम् ^l हिश्रौ १, २, ८;	अहीन, ना- -नः वैश्रौ १, १२ : २†; -नम् वैश्रौ ४, १० : ४; अप २५, २, १; २; -नाः(?!)आमिगृ ३, ६, ४ : १६ ^k ; १७ ^k ; हिपि १० : १५ ^k ; -नाम् ^l हिश्रौ १, २, ८;	†अ-हेड(ळ)मान- -नः आपध १, ४, १३; आमिगृ १, ५, ४ : ६; ऋअ २, ६, ४१; या ४, २५.
	†अहुता(त-अ)दृ ^e - -तादः पागृ २, १५, ३; कौसू ७३, १४.	अहो ^v सु १८, ३; या १०, ४२ ^w ; पा ८, १, ४०; पाग १, ४, ५७.
	अहुता(त-अ)भ्युदित ^f - -ते काश्रौ	अहो-पुरुष ^x - (> आहोपुरुषिका-पा. [पाग २, १, ७२]) पाग ५, १, १३३.

a) तस. वा. क्वि. । b) विप. । बस. । c) नगरविशेषयोः समाहारे द्रस. । व्यु. ? । d) =रङ्ग-विशेष- [अनुनासिक-]। व्यु. ? । e) तस. उप. कल्याण-, कल्याणयुक्त- । f) विप. । उस. । g) वैप १, परि. च. द्र. । h) अर्थः व्यु. च ? । i) =नगर-विशेष- । j) ञा इति पाठः ? यनि. शोधः । k) सप्र. अहीनाः <> अहीनाहाः इति पाठे. । l) =अखण्डिताम् (तु. सप्र. माश्रौ १, १, १, १२ अहताम् इति पाठे.) । m) विप. । बस. समासान्तः अच् प्र. (पावा ५, ४, ७५) । n) तस. > बस. । o) विप., नाप. (पाक्यज्ञ-विशेष- [तु. कौगृ १, १, ३ प्रमृ.]) । तस. । p) आ^o इति पाठः ? यनि. शोधः (तु. आपश्रौ ९, ९, ६) । q) सप्र. अहुते <> अहुतेषु इति पाठे. । r) सस. । s) =जठराग्नि- । व्यु. ? । t) पाठः ? भाने इति शोधः (तु. सपा. पै १, ९१, ४) । u) सपा. वाश्रौ १, ३, ३, १ वाहार्यमाणाः (?) इति पाठे. । तु. वैप १, ५९० । f) व्यु. ? अह + उ इति समाहारो विस्मयः । w) तु. शक. ।

अ-होम^a- -मः माश्रौ १,६, १, ५२;
-मेन शाश्रौ ३, २१, ११.

अ-होमक^b- -केषु कप्र १, १, ७.

अ-होम-संयुक्त^c- -कानि काश्रौ १,
३, ३७.

१अ-होमा(म-अ)र्थ^d- -र्थे हिश्रौ १०,
७, २५.

२अ-होमा(म-अ)र्थ^e- -र्याः आपश्रौ
१४, १५, ३; -र्यानि आपश्रौ
१, १५, १४; माश्रौ १, १७, २;
वैश्रौ ४, १ : १५; १५, ३ : १;
हिश्रौ १, ४, ३९; ८, १,
३५.

अहो-रथन्तर- प्रष्ट. अहन- द्र.

१अहौषधी^f वाधूश्रौ ३, १९ : २०.

अह- अहन- द्र.

अह्ना^g आमिष्ट २, ५, ५ : ११.

१अह्य^h- -ह्यः^h बौश्रौ १७, १८ : ५.

१ⁱअह्यⁱ- -ह्यः ऋप्रा २, ४७; १४,
५२.

१^jअह्य^j आश्रौ ४, ६, ३; शाश्रौ ५,
९, ६.

१^kअह्ययाण^k- -णः निघ ४, २; या ५,
१५६.

१^lअहस्त^l- -स्तः वैताश्रौ १०, १७.

१^mअहि^m- -हयः याशि २, ९४.

अ-हीⁿ- -हीः बौध १, २, ५७.

अ-हीत->अहीत-सु(ख->)खी^p-

-खी आपश्रौ १३, १५, ११.

अहीत-यान^q- -नः या ५, १५.

१^rअ-हुत- -तः बौश्रौ १, १५ : २२; -तम्
आपश्रौ १, १७, ८; बौश्रौ १, ४ :
३०; ५ : ११; माश्रौ १, १९, ८;
माश्रौ १, २, १, २७; वाश्रौ १, २,
४, २५; वैश्रौ ४, ४ : ५; हिश्रौ
१, ५, ११; -ता काश्रौ २५, १०,
१२; बौश्रौ १४, १४ : १३.

आ

१आ¹ आश्रौ १, ३, २२१; ५, २७; ९,
५१; १२, १६; २२; ××;
शाश्रौ १, १२, ७; १४, १९१; १५,
१५; २, ५, ३१; ७, ७××; ११, २,
५१^m; काश्रौ १, ३, २५; २, २,
२; ६, २; ३१; आपश्रौ १, २, ११;
९, ८; १०; १३, १२; १६, ७××;
६, १४, १२ⁿ; ११, १९, ६ⁿ;
१२, २२, ८^o; बौश्रौ १, १३ :
१११; १७; २० : २७××;
माश्रौ १, १, ४; ३, ४; ९, ३;
१७, ४; १८, ५××; माश्रौ १, १,
१, ३; २, २५; ३, ३९; २, १, १९;
२, २५ ××; वाधूश्रौ २, २ : २;
३, २५ : १४^r; ५८ : २; ६१ :

४; ७९ : १७××; ४, १५ : १२^p;
वाश्रौ १, १, १, ९; ३५; ४७^q;
८२; ८३××; वैश्रौ १, १५ : ७;
२, २ : १४^r; ३ : ११; ४, ३ : २;
७××; १५, २८, ९^s; हिश्रौ
१, ४ : ५७; ६, ११५; ७, २२;
५९; २, २, ३८××; ७, ८, ३८ⁿ;
१६, १, ३६^o; जैश्रौ ६ : ८; ७,
३; १७; २३; १८ : १३; जैश्रौका
१३४^r; १६१; द्राश्रौ २, २, ५३;
३, ६; ७, ३, २७; ९, ४, २३; १०,
१, १४××; लाश्रौ १, ६, ५०;
७, ६; ३, ३, २८; ८, १४; ९,
१५××; वैताश्रौ १, २०; २, २; ३,
६; १५, १७; १९, १८; २०,
२१; २१, १०^r; निश्रौ; कौश्रौ
५९, १८^s; १०६, ७^t; अपं ३ :
२६^u; या १, ३^v; २, २१;
३, १५^w; १६^x; ५, ५^y;
६, १^z; ३¹; ३४^{aa}; ८, ११¹;
११, ४८^{bb}; १४, ३६¹; ऋप्रा
१२, २०^{cc}; १५, १७^{cc}; शुप्रा
६, ९^{dd}; २४^{cc}; पा १, ४, १;
३, २, १३४; ५, १, १९;
१२०; ६, ३, ३५; ४, २२;
पावा १, २, ३२; ४, २३; ३,
४, २६; ५, १, १९; १२०; २,

a) तस. । b) विप. । बस. । c) तस. > तुस. । d) विप. । तस. > बस. । e) पाठः ? अहौषीः
(< √ हु) इति शोधः ? । f) पृ ४७२ n द्र. । g) = सर्प-विशेष- । व्यु. ? । h) सप्र. तां २५, १५, ३
आटः इति, बौश्रौ ३, १०, ६ होता इति च पाभे. । i) तु. वैप १, ५९० k । j) वैप १ द्र. । k) तस. उप.
= हसित- । l) प्रायेण पं. युक्तः कप्र. । विशेषो यथायथं टि. द्र. । m) स्वाअ. (तु. वैप १, ५९७ n) । n) दिवः
आ इति पाठस्य स्थाने मै १, ८, ६ काठ ६, ७ दिवा इति पाभे. । o) = सपा. तैत्रा १, १, २ । दिवः आ इति पाठस्य
स्थाने मै १, ३, १२ तु दिवा इति पाभे. । p) वा. ? स्वाअ. वा स्वायत्ताः इत्यनेनान्वितो वा ? । q) 'क्षेरन् ना°
इति पाठः ? 'क्षेरन्ना इति शोधः (तु. सप्र. आपश्रौ २१, ३, २) । r) आग्नीध्रीयात् इति पं. युक्तः कप्र. (तु. C.) । s) वैप १,
६१२ h द्र. । t) चार्थे स्वाअ. । u) वैप १, ६१२ z द्र. । v) अर्वागर्थे स्वाअ. । w) वैप १, ६०६ f द्र. ।
x) सकृद् एवार्थे स्वाअ. (तु. वैप १, ५९५ u), अन्यत्र उपमार्थे इति । y) अर्धार्थे इति या. ? । z) वैप १
आ-शुश्रुणि- टि. द्र. । a¹) वैप १, ६०३ w द्र. । b¹) वैप १, ५९९ z द्र. । c¹) स्वाअ. । d¹) वैप १
६०८ f द्र. ।

१४; ६, ४, २२; ३२; मीसू १०, ५, २९; ११, ४, ५२.
 २आ^१- शुप्रा ८, ३; ऋत ३, ६, ४; याशि २, ९४; आ३ शुप्रा ८, ३; याशि २, ९४.
 आः>आः-कारा(र-अ)न्त- -न्तम् या १, १७.
 आ-इ-कार- -रम् हिश्रौ २१, २, ३३.
 आ-ई-ऊ-ए-निदर्शन^१- -नम् याशि १, ७५.
 आ-ई-ऊ-ओ-निदर्शन^१- -नम् याशि २, ७८.
 आ३-इकारी✓भू, आ३इकारी- भवतः शाश्रौ १, २, ४.
 आ-उ-कार- -रम् हिश्रौ २१, २, ३३.
 १आ-कार- -रः निस् २, १० : १०; अपं १ : १२; या १, ४; ३, १६; ५, ५; ६, १; उस् ४, ८; अप्रा १, १, ६; शौच ३, ३८; आशि ३, १०; पावा १, २, ३७; -रम् शाश्रौ १, २, १; हिश्रौ २१, २, ३४; द्राश्रौ १५, ४, ७; लाश्रौ ५, १२, १४; ७, ११, ११; वैगृ ५, ७ : ७; ऋप्रा २, २४; ४, २४; १०, १०; उस् ४, १३; १४; नाशि २, ४, ५; -रस्य शौच १, ३५; पावा १, १, १; -रात् अप्रा २, ३, ७; शौच १, ९६; २, २२; -रे उस् १, १८; शुप्रा ४, ४०; पावा १, २, ३७; -रेण शुप्रा ४, १८५; अप्रा ३, ४, १; -रौ निस् ८, ६ : २२.

आकार-ग्रहण- -णम् पावा ३, ४, ११०; ७, ४, ४७.
 आकारग्रहणा(ख-अ)र्थ- -र्थः पाप्रवा १, १.
 आकार-टकार- -रौ निस् ३, ११ : ११.
 आकार-णि(<नि)घन^०- -नम् लाश्रौ ७, ३, १५.
 आकार-पूर्व- -र्वः तैप्रा ९, २०; -र्वस्य शैशि २२१.
 आकार-प्रकरण- -णात् पावा १, १, ६३; ६, ४, १४१; ७, १, ८६.
 आकार-भूत- -तः उस् ७, ५; ७.
 आकार-लोप- -पः पावा १, १, ५८; -पस्य पावा १, १, ३९; -पात् १, ४, २.
 आकार-स्थान- -ने लाश्रौ ७, ११, १७.
 आकारा (र-आ)दि- -दीनि अप्रा ३, २, ५.
 आकारा(र-अ)न्त- -न्तः भाशि ८४; -न्तम् पागृ १, १७, ३; वागृ ३, ३; जैगृ १, ९ : ४; शंघ २२; उस् ८, २६; कौशि ४९; -न्तयोः उस् ८, २९; -न्तस्य पावा ६, १, १६८; -न्तात् अप्रा २, २, १; ४; पावा १, १, ५६; -न्ते शौच ४, १४.
 आकारान्ता(न्त-अ)नुपपत्ति- -त्तिः पावा ४, १, ४८.
 आकारान्त-वृथा^१ भाशि ५३.
 आकारा(र-आ)बाध^१- -धे अप्रा २, १, १४; ३, २, ३.
 आकारे (र-इ)कारो(र-उ)कार-

-राः तैप्रा १६, १४.
 आकारो(र-उ)प(धा>)घ- -घः ऋप्रा ४, ६५; शुप्रा ३, १४२; -घस्य शौच २, २७; ५५; -घानि अप्रा २, १, १५.
 आकारौ(र-ओ)कारा(र-आ)दि- -दि शौच ४, ११५.
 ए(आ-इ)ति-वत्- -वन्ति आपश्रौ १४, १९, ४.
 एतिवती- -तीः हिश्रौ १५, ५, १८.
 आंशकायन- २अंशक- ६.
 आंशव- १अंशु- ६.
 आंशय- २अंश- ६.
 ?आंसा अप ४८, ११६१.
 आ-कण्ठ^१- -ण्ठम् अप ६८, २, ५.
 आकत्य- अकत- ६.
 आ-कर- प्रभृ. आ✓कृ(विक्षेपे) ६.
 आ-कर्ण- >^१र्ण-प्रावृत्त^१- -ताः माश्रौ २, ५, २, २०.
 आ✓कर्णि(<कर्ण-) > आ-कर्णं वृदे ४, ७४; ६, ११९.
 ?^१आकर्ण्ये कर्ण्यः^१ आपश्रौ २१, २०, ३; हिश्रौ १६, ६, ४१.
 आ-कर्ष- प्रभृ., आकर्षण-, आकर्षिक- आ✓कृष ६.
 ?^१आकर्षेः कुशौः^१ काश्रौ १३, ३, २६.
 ?^१आकर्ष्ये कार्ण्यः^१ वाश्रौ १३, २, ५, ४३.
 आ✓कल् > ^१आ-काल^१- -ले बौश्रौ १३, १६ : ५; ८; ९.
 आकशापो, वेग्य- अकशाप, य]- ६.
 आ✓कष > आ-कष^१- (>^१षक- पा.) पाग ५, २, ६४.

a) वर्ण-विशेष-। व्यु. ?। b) द्वस. > षस.। c) =साम-विशेष-। बस.। d) कस.। e) षस.। f) अस. वा. क्विवि.। g) विप.। कस. पूष. अस.। h) सप्र. आकर्ण्ये कर्ण्यः <> आकर्षेः कुशौः <> आकर्ष्ये कार्ण्यः इति पाठे.। i) वैप १ ६.। j) =निकषोपल-। गस. उप. अघिकरणे घः प्र. (पा ३, ३, ११९)। तु. भारुडा. पागम.। ^१कर्ष- इति भारुडा. प्रभृ.।

आकस्मिक- अकस्मात् द्र.

आ/काङ्क्ष, आकाङ्क्षति बौध्रौ
 छ, ६ : १३; ५, ३ : ६×४; वाश्रौ
 १, ७, २, ३५; आकाङ्क्षतः बौध्रौ
 ५, ८ : १०; आकाङ्क्षन्ते बौध्रौ
 ७, ६ : २०; आकाङ्क्षन्ति
 अप्राय १, १; आकाङ्क्षेत बौध्रौ
 २१, ३ : ११; द्राश्रौ २, २, ११;
 लाश्रौ १, ६, १०; भागृ ३, १४ :
 २५; आकाङ्क्षेत् आश्रौ ४, ७,
 ४; द्राश्रौ १, २, २४; लाश्रौ १,
 २, १८; कौश्रु; आकाङ्क्षेयुः
 जैगृ २, ५ : १८.

आ-काङ्क्ष- -ङ्क्षम् पा ८, २, १६;
 १०४.

आ-काङ्क्षत्- -ङ्क्षन् बौध्रौ १,
 १५ : ३१.

आ-काङ्क्ष्य- -ङ्क्ष्यः निसू ९, १३ :
 ४४.

आ-काय- आ/वि द्र.

१आ-कार- प्रभृ. २आ- द्र.

२आ-कार-, °कारिन् आ/कृ द्र.

१आ-काल- आ/कल् द्र.

२आ-काल- -कल् माश्रौ ५, १, ६,
 ३२; शांगृ ४, ७, २^b; पागृ २,
 ११, २; कागृ ४५, ४; मागृ १,
 ४, १८; गोगृ ३, ३, १७; हिपि
 ८, ८; कौसू १४१, २२; ३२;
 आपध १, ११, २९; ३०; २, १५,
 ५; हिघ १, ३, ७९; ८०; २, ३,
 ३५; ४४; -लात् पावा ५, १,
 ११४^१.

२आकालिक, का, की^०- पा, पावा
 ५, १, ११४; -कः मागृ १, ४,
 ११; -कम् कौगृ ३, ९, २^b; कागृ
 ९, ७; मागृ १, ४, ६; वागृ ८, ६;
 द्रागृ ३, २, ३०; वाध १३, ३५;
 ३८; गौध १६, ४८; -काः गौध
 १६, २२; -कानिकाध २७५:९.
 आकालिक-विद्युत्-स्तनयित्नु-
 वर्ष^d- -र्यम् वागृ ८, ११.
 आकालिके (क-ई)प्सा- -प्सा
 मीसू १, २, १४.

१आकालिक- २अ-काल- द्र.

आ/काश>आ-काश^०- पाग ४,
 ३, ५४^१; -शः शाश्रौ १, ६,
 १२^१; १३, ५, २२; ऋआपश्रौ
 १०, १, १४; ३, १; बौश्रौ; विघ
 ९८, २; हिघ २, ५, १३४^१; १५७;
 या १४, ३; ४; -शम् आश्रौ
 ५, ३, २५; शाश्रौ; आपध २, २२,
 ४^१; निघ १, ३; या १४,
 ४; ११; -शात् आपश्रौ २१, १०,
 ३; हिश्रौ १६, ४, १५; अप्राय
 २, ९^१; या १४, ४; -ऋशाय
 पागृ १, १२, २; कागृ ५४,
 १६; मागृ; -शे बौगृ २, ८, ३८;
 मागृ २, १२, ८; वैगृ; -शेषु
 वाधूश्रौ ३, ८६ : १२^b.

आकाश-गुण- -णः या १४, ४.

आकाश-पथ- -थे अप ६४,
 ४, २.

आकाश-रूप- -पम् शुश्र ५,
 १३२.

आकाश-वत् वैध १, ११, ३.

आकाश-व(त्>)ती- -तीभिः
 आश्रौ ५, ५, ९; ६, १०.

आकाशवत्य (ती-अ) कुलि^१-
 -ली आश्रौ १, १, २३.

आकाश-वायु-प्रभव^१- -वः
 आशि १, १.

आकाश-शायिन्- -यी शंघ
 १५२ : ११; विघ ९५, ३.

आकाश-(स्थ>)स्था- -स्था
 शैशि १८०; याशि २, ८.

आकाश्य- पा ४, ३, ५४.

आकाशफेन^k- -नम् कौसू ११५, १.
 -ने कौसू ९३, २२.

आ/कि, आचिकेतु बौध्रौ ६, १३ : ३^१.

आ/कित्, आचिकेत या १४, २०^१;
 आ (चिकेत) आश्रौ ४, ७, ४;
 शाश्रौ ५, १०, ११.

आकिदन्ति, न्ती^m- (>°न्तीय-पा.)
 पाग ५, ३, ११६.

आकीम^e निघ ३, १२; पाग १, ४,
 ५७.

आ-कीर्ण- आ/कृ (विक्षेपे) द्र.

आ/कुच्>आ-कुचित- -तः या ५,
 २८.

आ/कुञ्च्>आ-कुञ्च- -ञ्चम्
 माशि २, ८.

आ/कुट्ट>आ-कुट्टⁿ- -ट्टे बौश्रौ
 २६, ३२ : १८.

आ-कुर्वत्- आ/कृ द्र.

आ/कुल>आ-कुल^०- -ले अप २३,
 ११, २.

a) कालम् अभिव्याप्य (कालाद् आरभ्य द्वितीयेऽहि समानकालं यावद् इति) इति कृत्वा अस. वा. क्रिवि. ।
 b) सपा. आकालम् <> आकालिकम् इति पाभे. । c) विप. । बस. । d) कस. > समाहारे द्रस. । e) वैप
 १ द्र. । f) काश- इति पागम. । g) सपा. °शः <> °शम् इति पाभे. । h) =अवकाश- । i) विप.
 (पाणि-). । बस. पुंवद्भावाऽभावः । j) विप. । द्रस. > बस. । k) =ओषधि-विशेष- । व्यु. ? । l) पाभे.
 वैष १, ६१४ y द्र. । m) आयुधजीविसंघविशेष- । व्यु. ? । °दन्ती- इति पाका. । n)
 =निम्नाहतस्थान- ।

आ/कू> ऋआ-कृत^१ - -तम् आपश्चौ
 १०, १८, ३^b; १४, ३०, ५; १७,
 २३, ११^b; वौश्रौ १४, १६ : ८;
 माश्रौ ६, १, ३, २०^c; वाश्रौ २, १,
 २, १८^c; २, ५, ७^b; ३, ४, १, ४९^c;
 हिश्रौ १०, २, ६, ५^b; १५, ७, २१;
 आपमं १, १०, ९; पाण्ड १, ५, ९;
 आमिण्ड २, ५, ५ : ४; माण्ड १, ६,
 २^c; १०, ९; २३, ६^c; २, २, १३;
 वाण्ड ७, ५^c; वैण्ड १, १७ : ३;
 हिण्ड १, १७, ४^b; चाण्ड १६ : ७^b;
 -तात् काश्रौ १८, ६, २१;
 आपश्रौ १३, २४, १७; १७,
 २३, ११; वौश्रौ १०, ५९ :
 १३; वैश्रौ १६, २८ : ८;
 १९, ७ : १०; हिश्रौ १२, ७, १०;
 शुश्र २, ३४१; चाश्र ४० :
 १९^d; -तानि^e माण्ड १, ८,
 १०; १२, ६; -ताय माश्रौ १,
 ५, ६, २०; वाश्रौ १, ४, ४, ४५;
 आमिण्ड १, ५, २ : १८; माण्ड १,
 ११, १५; वाण्ड १, २६.
 ऋआ-कृति^१ - -तयः वौश्रौ १४, ९ :
 ३०; हिश्रौ १०, ८, ४४; वेताश्रौ
 १७, ४; -तये माश्रौ १, ५, ६,
 २०; वाश्रौ १, ४, ४, ४५; वाण्ड १,
 २६; -तिः वौश्रौ १४, १६ : ८;
 वाध्रूश्रौ ४, २९ : ४; आपमं १,
 १०, ९; आण्ड ३, ५, ८^c; पाण्ड १,
 ५, ९; आमिण्ड २, ५, ५ : ४; ३,
 ११, ३ : २३^c; वौपि २, ११, ८^c;
 १२, २^c; माण्ड १, ३, २^b; वैण्ड १,
 १७ : ४; गौपि २, ६, २२^c;
 -तिम् काश्रौ १६, ४, ३०^c; २६.

७, ४९; आपश्रौ १६, ८, १३^c;
 वौश्रौ २, १ : ८; ९; १०; १३ :
 १^c; वैश्रौ १८, ६ : १३^c; हिश्रौ
 ११, ३, २^c; आमिण्ड १, ५, १ :
 ११; २ : ११; १२; शुश्र २,
 ६८; अश्र १९, ४; -तीः आपश्रौ
 १७, २३, ११; वैश्रौ १९, ७ :
 ११; हिश्रौ १२, ७, १०; -त्या
 आश्रौ ५, १३, ६; शाश्रौ ७, १६,
 ८; वौश्रौ २, १ : ७; ६ : ४; ८,
 ३ : १७; -त्यै काश्रौ ७, ३, १३^c;
 आपश्रौ १०, ८, ५^c; १६, ८,
 १३^c; १९, १७, ९; २०, ८, ५^c;
 वौश्रौ २, १ : ७; १३ : २१; ६, ४ :
 १^c; १४, १५ : ५; २१, ८ : ४६^c;
 माश्रौ १०, ५, ९^c; माश्रौ २, १,
 २, १^c; ६, १, ३, २०^c; वाध्रूश्रौ
 ४, २३ : ३; २५ : ३; २९ : ४;
 वैश्रौ १, ५ : ७; १२, ८ : १^c;
 हिश्रौ ७, १, ४१^c; ११, ३, २^c;
 २२, १, २०; आमिण्ड १, ५, २ :
 ९; १८; काण्ड २५, १६; माण्ड
 १, १०, ११; वाण्ड १४, १२; जैण्ड
 १, ४ : ७; कौसू ५, ७^c; शुश्र १,
 २४४^c; चाश्र २ : २^c.

आकूपार-^१ कौश्र- अकूपार- द.
 ?आकूरः आमिण्ड २, ६, ७ : १५.
 आ/कू, ऋआकृषि आपश्रौ ५, २६, ५;
 माश्रौ.
 आ...कृणोति अप्राय ५, ६^c;
 आ...कृणोतु आपश्रौ १४, २९,
 ३^c; ऋआ (कृणुष्वम्) शाश्रौ
 १४, ५७, ३; वौश्रौ १३, ४ : २;
 वौण्ड ४, २ : ८; ऋश्र २, ४, ३;

चाश्र ४१ : ४; साश्र १, ६९.
 आकुरुते^१ या ३, १५; आकुरु-
 ताम् अश्र २, ३०; ऋआकुरु
 आपश्रौ ३, १३, ६; माश्रौ ३,
 १२, ९; हिश्रौ २, ६, ३२.
 ऋआ...कः काश्रौ २३, ३, १;
 आपश्रौ २२, १९, १; हिश्रौ १७,
 ७, १०.
 रभा-कार^१ -> च-चिन्तन- नम्
 या ७, ६.
 आकारिन्- -री या २, २७.
 आ-कुर्वत्- -र्वन् कौण्ड ३, ५, ७.
 आ-कृत, ता- -तः अश्र २३, ५, ५;
 -तम् निष ३, १२^१; -तासु गो
 २, २९.
 आ-कृति^१- पिं ४, ३; -तयः अश्र
 १३, ३; -तिः निस् १, ५ :
 १३; माण्ड २, १३, ६^c; वौश्रु
 ११ : ६; १२ : २; १६ : ३;
 १७ : ३; २० : ३. शुश्र ४, १८६;
 अश्र ९, ५; १३, ३; या ११,
 ५^c; ऋश्र १६, ८९ : ९२; १८,
 ४; उनिस् २ : १८, मीस् १,
 ३, ३३; -तिम् वैण्ड ५, ६ : २३;
 २४; १२ : ५; ११; ७, ३ : ५;
 ७; ९; १३; अश्र ३५, १, ६; ७;
 -तीः आमिण्ड ३, ६, ४ : १२^c;
 वौपि १, १३ : ११; हिपि १० :
 ११; -तीनाम् अश्र २ : १; ८;
 -ती पावा ७, १, ७४.
 ऋआकृति-ग्रहण^१ - -णात् पावा
 १, १, ६९; पाप्रवा १, १३.
 रभाकृति-ग्रह(ण>)णा^१ - -णा
 पावा ४, १, ६३.

a) वैप १ द. । b) पामे. वैप १, ६१५ f द. । c) पामे. वैप १, ६१५ n द. । d) प्यात् इति पाठः ? यनि. शोषः । e) पामे. वैप १, ६१५ h द. । f) पामे. वैप १, ६१६ h द. । g) तु. सस्थ. टि. आ । h) =आ-कृति- । i) अव्य. । j) आप., नाप. (छन्दोविशेष-). k) कृतीः इति पाठः इ यनि. शोषः (तु. वौपि.) । l) षस. । m) विप. (जाति-)। षस. ।

आकृति-चोदन^a- नात् आपशु
८, १; हिशु ३, २.
आकृति-दहन^a- नम् वैश्रौ २०,
२२ : ११ वैगृ ५, १२ : १; २;
१३; ७, ४ : १६.
आकृतिदहना(न-आ)दि^b-
-दि वैश्रौ २०, २३ : ७; वैगृ ६,
१४ : १.
आकृति-द्वैविध्य^a- -ध्यम् बौशु
८ : १.
आकृति-निर्देश^a- -शात् पावा
१, १, ७३.
आकृति-लोष्ट- > लोष्ट-
वल्मीक^c- केन^d कौस् ६०, १८;
६९, १०; -कौ कौस् २५, ७;
२६, ४३; ३२, ६; ३७, ८.
आकृतिलोष्टे(ष्ट-इ)त्यादि^b-
-दि वैताश्रौ ५, १२.
आकृति-वचन^a- नम् मीस् ९,
४, २४.
आकृति-वाचिन्-> ँचि-त्व-
-त्वात् पावा १, २, ६९.
आकृति-विकार^a- -रः बौश्रौ १७,
२९ : २; -रस्य आपशु ८, ११;
हिशु ३, १५, -राः हिश्रौ १२,
८, १; -रे बौश्रौ २०, १६ : १४.
आकृति-होम- -मम् गो २, २६;
-माः गो २, २७.
आकृत्य(ति-अ)भिधान^a- -नात्
पावा १, २, ६४.
आकृत्य(ति-अ)संप्रत्यय^a- -यः

पावा १, २, ६४.
आकृत्यु(ति-उ)पदेश^a- -शात्
पापवा १८.
आ/कृत् (छेदने)>आ-कृत्य गोशु ३,
१०, २८.
आ/कृष्, आकर्षति या २, २;
आकर्षेत् गौध ९, ५०^e.
आकृषेयुः^f पागृ २, १३, ६^f.
आ-कर्ष^g- पाग ५, २, ६४^h; -र्षेण
कौस् ३६, ९ⁱ.
आकर्ष-क- पा ५, २, ६४.
आकर्ष-फलक^l- -केन पागृ २,
१०, १७.
आकर्षिक- पा ४, ४, ९.
आ-कर्षण- -णम् वैध १, ११, ४;
-णेन हिगृ १, १४, ५^k.
आ-कृष्ट- पाग ५, १, १२३^l; -ष्टे
कौस् ३६, ८^m.
आकृष्टिमन्-, आकृष्टय- पा ५, १,
१२३.
आ-कृष्य वैश्रौ २०, २२ : ३; कौगृ
५, ४, ३; सु १८, १.
आ-कृष्णⁿ- -ष्णः श्रप ५२, २, ५.
आ/कृ(विक्षेपे), आ...किरासि ऋप्रा
८, ४५; आ...किर > रा ऋप्रा
८, ३२.
आ-कर^o- -राः विध २३, ४८; शंध
१७६^p; बौध १, ५, ५०; -रेभ्यः
विध ३, ५५.
आकर-ज^q- -जानाम् शंध १७६.
आकर-शुल्क-तर-नाग-वन- -नेयु

विध ३, १६.
आ-कीर्ण-> णं-रश्मि^b- -श्मिः
या १२, १२.
आ/कृष् > आ-कल्प्य वैश्रौ १०,
४ : १३.
आके, ऋभाके-निप- आ(आ/अ)च्,
ञ्च् द्र.
आ/कै > का (*कान्तौ)^r, ऋभाचके
श्रपमं १, ४, १२; श्रमिगृ १, ५,
४ : ५; श्रप ४८, ३; निघ २, ६.
आकौशल-, °शल्य- अकुशल- द्र.
आक्त- प्रमृ. आ(आ/अ) ज्, ञ्च् द्र.
आ/क्रन्द पाधा. चुरा. उभ. सातत्ये,
(आ)क्रन्दति^s, आ(क्रन्दति)^s शागृ
३, २, ५; ६; ८; आ...आक्रन्दतु
पागृ ३, ४, ४; आ...क्रन्दतु^t भागृ
१, २७ : ६; (आ)क्रन्दतु कौगृ^u
३, २, २; ३; ५; शागृ^v ३, २, ५;
६; आ(क्रन्दतु^w) कौगृ ३, २, २;
३; ५; भागृ १, २७ : ७; आ^x
(क्रन्दतु)पागृ ३, ४, ४; आ(क्रन्दतु)
पागृ ३, ४, ४; भागृ १, २७ : ७.
आक्रन्दय साश्र १, ५९५^y.
आ-क्रन्द^z- -क्रन्दाः द्राश्रौ ११, २,
१०; लाश्रौ ४, २, ९; -न्दात्
पा ४, ४, ३८^z; -न्दे निघ २, १७.
ऋभाक्रन्द-कृत्वन्^{aa}- -त्वा द्राश्रौ
४, ३, ३; लाश्रौ २, ३, ३.
आक्रन्द-सारिन्^{ab}- -रिणाम् अप
६३, ४, १०.
आक्रन्दिक- पा ४, ४, ३८.

a) षस. । b) विप. । बस. । c) द्वस. पूव. = प्रकृतिसिद्ध-लोष्ट- इति संस्कर्ता [भू XLVI], = क्षेत्र-लोष्ट- इति दारिलः [८, १६] । d) समाहारे द्वस. । e) तु. संस्कर्तुः टि. Bühler च । f) कृषेयुः इति गदाधरविद्यनाथौ । g) = शारि-
L, र]-फलक- इति अभा., = आ-कष- [तु. प्र ४७९ j टि.] इति पाका ४, ४, ९ । h) = यूतकीडा- [तु. पागम.] । पाभे. आ-कष-
टि. द्र. । i) = अङ्गारकर्षणार्थक-लोहोपकरण-विशेष- [पागम ४, ४, १०] । j) = अक्ष-फलक- । k) = आ-कर्ष- (तु. मातृदत्तः) ।
l) कृष्ट- इति भागडा. । m) अर्थः ? = मातृका- इति दारिलः । n) विप. (शैश्वर-सुत) । प्रास. । o) नाप. । वैप १, ६१६
३ द्र. । p) तथा कराः इति तथा इति च पाठः ? यनि. शोषः । q) विप. । उस. । r) वैप १ द्र. 1. 5) परस्परं पाभे.
द्र. । t) सपा. (आ)क्रन्दतु <> आ(क्रन्दतु) <> आस्यन्दन्ताम् इति पाभे. । u) = देश-विशेष- ।

आ/क्रम^a, आक्रमते वैश्रौ १८, १४ :
 ३१; लाश्रौ १०, १९, १३; निस्
 १०, ११ : ७; आक्रामति शाश्रौ
 ३, १६, १८; भाश्रौ; आक्रमते
 हिश्रौ ८, ७, १२; वेज्यो ६;
 आक्रामतः माश्रौ २, ४, १, १२;
 आक्रमन्ते शाश्रौ १५, १७, ११;
 आपश्रौ; आक्रामन्ति माश्रौ २, २,
 २, ८; आक्रमत वाधूश्रौ ४, ३२ :
 १; आक्रामत लाश्रौ ८, १२, ८;
 आक्रमत् माश्रौ ६, २, ४, १०;
 आम्रिगृ २, ७, १० : १४; आ-
 क्रामेत् दाश्रौ १५, १, १; लाश्रौ
 ५, ९, १; विध ६३, ४०; आ-
 क्रामेयुः दाश्रौ ३, १, २, ७; लाश्रौ
 १, ९, २, ७.
 †आ...अक्रमीत् आश्रौ ६, १०,
 १६; ८, १३, ६; माश्रौ; †आ
 (अक्रमीन्) शाश्रौ १०, १३,
 २१; २६; काश्रौ ४, ९, १६;
 वाश्रौ; †आ(आ-अ)क्रान् आपश्रौ
 २०, १६, १५; १७, १; २१,
 ६; वौश्रौ; †आक्रमिषम् आपश्रौ
 १७, १३, ५; वौश्रौ.
 आक्रमयति आपश्रौ ५, १४, १५;
 १६, २२, १; वौश्रौ; आक्रमयति
 आपश्रौ ५, १४, १४; वाश्रौ १,
 ४, ३, १९; आक्रमयन्ति काश्रौ
 २०, ५, ७; वाश्रौ ३, ४, ३, ७;
 आक्रमयेत् वौश्रौ २०, १७ : ७;
 भाश्रौ ५, ८, १३; वैश्रौ २०,
 ११ : ११; द्रागृ १, ३, १९;
 आक्रामयेत् गोगृ २, २, ३.
 आ-क्रम- -मः, -मम्, -माय वैताश्रौ
 २७, २७.
 आ-क्रमण- -णम् शाश्रौ १, ४, १;

आपश्रौ; -णात् वाध ३, ५७;
 वौध १, ६, १९; या ६, १७; -णे
 वौश्रौ २०, १७ : ५; -णेषु हिश्रौ
 ११, ७, १४.
 आक्रमण-प्रत्याक्रमण- -णे
 आपश्रौ २, १४, ११; भाश्रौ २,
 १४, २; वैश्रौ ६, ३ : ११.
 आक्रमण-यजुस्- -जुः दाश्रौ
 १५, १, २; लाश्रौ ५, ९, २.
 †आ-क्रममाण, णा- -णा आपश्रौ
 १६, ३०, १; वैश्रौ १८, २० :
 ४४; हिश्रौ ११, ८, ४; -णाय
 हिश्रौ ३, ५, २५,
 आ-क्रमयन्- -यन् काश्रौ १५, ५,
 २३; हिश्रौ १४, १, ३८^b.
 आ-क्रमय्य आपश्रौ १६, २२, १; २०,
 ४, ५९; लाश्रौ ९, ९, २०; कौगृ
 १, ८, २०; शागृ १, १३, १२.
 आ-क्रम्य आश्रौ १, १, २३; काश्रौ.
 आ-क्रम्यमाण- -णे माश्रौ ६, १, १,
 १७.
 आ-क्रान्त- -न्तः अप ५१, ३, १;
 विध ३३, ३; -†न्तम् आपश्रौ
 ८, ४, २; वौश्रौ ५, ४ : २७;
 ९ : २८; १७ : १६; १८ :
 २२; माश्रौ १, ७, २, २३; हिश्रौ
 ५, १, ४५; अप ५१, ५, २६.
 †आ-क्रान्ति- -न्तिः आपश्रौ १६,
 ३०, १; वैश्रौ १८, २० : ४५;
 हिश्रौ ११, ८, ४.
 आ-क्रामत्- -मन् आशि ८, १, ७;
 -मन्तः दाश्रौ ३, ३, ६; लाश्रौ
 १, १०, ३०.
 †आक्रामन्ती- -न्ती आपश्रौ
 १६, ३०, १; वैश्रौ १८, २० :
 ४५; हिश्रौ ११, ८, ४.

आ/कीद्^d > आ-कीडा- -डाः अप
 ६५, २, ६.
 आ-कीडिन्- पा ३, २, १४२.
 आकीडिनी^e- -नीम् काश्रौसं
 २९ : ७.
 आ/कुश्, आक्रोशति काश्रौ १३, ३,
 ७; आपश्रौ २१, १९, १०; अप
 ४८, ४७; आक्रोशतः काश्रौ १३,
 ३, ८; आक्रोशेत् दाश्रौ ११, ३,
 १५; लाश्रौ ४, ३, १६; मागृ १,
 ३, ४.
 आ-कुश्य आपध १, २६, ३; हिध १,
 ७, १४.
 आ-कुष्ट- -ष्टे कप्र १, २, १४.
 आ-क्रोश- -शः वृदे १, ३९; -कम्
 दाश्रौ ७, ३, ८; -शे शंघ ३१४;
 पा ३, ३, ४५; ११२; ४, २५;
 ६, २, १५८; ३, २१; ८, ४, ४८;
 पावा ३, २, १२६; ८, ४, ४८.
 आक्रोश-कर्मन्- -र्मा या ४, २.
 आक्रोश-दैन्य- -न्ययोः पा ६,
 ४, ६१.
 आक्रोशा(श-अ)नृतवाद- -देषु
 शंघ ४१३.
 आक्रोशा(श-अ)नृत-हिंसा-
 -सासु गौध २३, २८.
 आक्रोशा(श-अ)र्थ- -र्थाः वृदे
 १, ४८.
 आ-क्रोशत्- -शतः आपध २, २७,
 १४; हिध २, ५, २३३; -शन्
 वौश्रौ १६, ३० : ६; -शन्तः
 आपश्रौ २३, १३, १; वौश्रौ १६,
 २९ : १३; हिश्रौ १७, ८, ८;
 १८, ४, ३६.
 आ-क्रोशन- -ने सुधप ८७ : २.
 आ-क्रोशयित्- -ता विध ५, २३.

a) पा, पावा १, ३, ४० परामृष्टः द्र. । b) ष्यत् इति पाठः ? यनि. शोचः । c) सप्र. आक्रमयम्
 <> आक्रमय्य इति पाठे. । d) पा १, ३, २१ परामृष्टः द्र. । e) =इष्टि-विशेष- ।

आह्नी^० (> आह्नी/कृ. पा.) पाग १, ४, ६१.

आक्षभारिक- ३ अक्ष- द्र.

आ/क्षर् > आ-क्षार^० - रम् लाश्रौ ७, १, १; १०, १, १३; निसू ३, १० : २३; -रे निसू ३, १० : २२.

†आ-क्षाण^० - णः मागृ २, ८, ६^d; निघ २, १८; या ३, १०.

आ/क्षि(निवासे), †आक्षीयेम^० आपश्रौ १३, २२, ५; बौश्रौ ४, ११ : २०; बौगृ ४, ४, ९.

आ/क्षि(हिंसायाम्), †आक्षिणोमि आपश्रौ १०, २, १०.

१आक्षिक- १अक्ष- द्र.

२आक्षिक- ३अक्ष- द्र.

आ/क्षिप्, आचिक्षिपतुः ऋअ २, १०, ५६.

आ-क्षिपत्- -पन् विध ५, २८.

आ-क्षिप्त- -प्तम् शौच १, १६.

‡आक्षीय^१- -येषु बौश्रौ १४, १३ : ३; २३, ११ : २०.

‡आक्षीयत्^२- -यन्ति बौश्रौ १६, १६ : २^b-४^b; १७, १८ : ९; २३, ११ : २१; २५; २६, १७ : ६; ८; ९.

‡आक्षेत्र- -त्रे अप ६५, २, १०.

आक्षेत्रइय- अक्षेत्रज्ञ- द्र.

आ/क्षण, आक्षणोति काश्रौ २१, ४, ६.

‡आक्षयत्^३- -क्षयन्ति आपश्रौ २३, ९, १६^{३b}.

आखकी- (> आखकी-पा.) पाग ४, १, ४१.

†आखण^० - णः द्राश्रौ १०, २, ७; लाश्रौ ३, १०, ६; -णम् शाश्रौ १७, १५, ४; बौश्रौ ३, २३ : १०; द्राश्रौ ३, ३, २४; लाश्रौ १, ११, १५; -णाय शाश्रौ १७, ५, ५.

†आ/खण्ड > आ-खण्ड- > ण्ड-ल^० - -ल या ३, १०^०; -†लः अप ४८, १९.

आ-खण्डयित्- -लतः या ३, १०.

‡आखण्डि- (> आखण्डि-शाला-पा.) पाग ६, २, ८६.

आ/खन् > आ-ख- पावा ३, ३, १२५.

आ-खन- पा ३, ३, १२५.

१आ-खनिक- पाउ २, ४५.

२आ-खनिक-, आ-खनिकवक- पावा ३, ३, १२५.

आखनिक-वक^१- पाग २, १, ४८; ६, २, ८१.

आ-खात- -तम् द्राश्रौ १०, ३, २^d.

आ-खान- पा ३, ३, १२५; -नम् माश्रौ ६, १, १, १५; २९; -नस्य माश्रौ ६, १, १, २५.

आ-खु^० - पाउ १, ३३; -खवः वृदे ६, ५९; -खुः †आपश्रौ ८, १७, ९; ११; १४, ७, ३; बौश्रौ ५, १६ : ११[†]; १५, २३ : १८; १७, १४ : १२; वैश्रौ ९, १० : १६[†]; हिश्रौ ५, ५, १०; ९, ८,

३५[†]; विध ४४, १४; शुप्रा ५, ३७[†]; -खुनि^१ बौश्रौ २, ५, २१[†]; -खुम् आपश्रौ ५, ९ : ८[†]; माश्रौ १; ७, ७, ४[†]; वाश्रौ १, ७, ४, ६२[†]; हिश्रौ ९, ८, ३५; चाअ १०, २[†]; अप्रा ३, ४, १[†]; -खोः बौश्रौ २४, १४ : २.

आखु-करीष^२ - वम् आपश्रौ ५, १, ७; ९, ८.

आखु-किरि^३ - रिम् माश्रौ १, ५, २, १७; वाश्रौ १, ४, २, ८; -रौ माश्रौ १, ७, ७, ४; वाश्रौ १, ७, ४, ६२.

आखु-किरि-पूतीक-मथित-जरत्-प्रमन्द-सावस्क- -स्कान् कौसू २५, ११.

आखु-मूषा^४ - षायाम् वैश्रौ ९, १० : १६^०.

आखु-राज- -जः वृदे ६, ६०; -जम् गोगृ ४, ४, ३०; -जाय कागृ ५५, ५.

आखु-रूप- -पम् आपश्रौ ५, १, ७.

आखु-संचर- -रे वैश्रौ १९, ६ : ४७.

आखु-हन- -हा पावा ३, २, ८४.

‡आखु(खु-उ)कर^५ - रम् बौश्रौ २, ६ : १८; १२ : ३; भाश्रौ ५, ५, ४; हिश्रौ ३, ३,

a) विकारे अच्य. । व्यु. ? । b) वैप २, ३ खं. द्र. । c) वैप १ द्र. । d) सपा. स्वर, आक्षानः

<> सुरक्षितः <> स्वाराक्षराणि (BC. 'रा क्ष' इति पाभे. ? । e) पाभे. वैप १, ६१८ । द्र. । f) अर्थः व्यु. च ? आक्षीयत्- > नैप्र. यनि. इति C. टि. । g) अर्थः व्यु. च ? = अहर्विशेष- इति सा. (ऐब्रा ४, १७) । वैप २, १७७ टि. द्र. । h) सपा. ‡आक्षीयन्ति <> ‡आक्षयन्ति इति पाभे. । i) आपच्छिक- इति भाण्डा., 'पिच्छि' इति पाका. । j) सप्त. । पूष. = जल-स्रोतस्- (तु. पागम.) । k) सपा. आखातम् <> खातम् इति पाभे. । l) न. सप्त १ । m) पाठः ? शोभार्थं वैप १, ७२२ j द्र. । n) = आखुकीर्ण- मृचय- । पस. । o) सप्र. आखुमूषायाम् <> आखुकरे इति पाभे. ।

२६; -रे काश्रौ ५, १०, ११;
आपश्रौ ८, १७, ९^a; भाश्रौ ८,
२१, ६; हिश्रौ ५, ५, १०; द्राश्रौ
१३, २, १०; लाश्रौ ५, ३, २.

आखल्करो (र-उ)पकिरण^b-
-णम् काश्रौ २५, १०, १६.

२आखू (खु-उ)क्क(र>)रा^c-
-राम् वैगृ ६७ : १४.

आखू (खु-उ)द्वत- -तम् वैश्रौ
१, ७ : ३.

आख्व (खु-अ)वट- -टे वौश्रौ
५, १६ : १७; १०, ४८ : १७;
१९, ४ : २९.

आ-खर^d- पावा ३, ३, १२५; -रः
शांगृ ५, २, ५.

†आखरे-ष्ट^e- -ष्टः^e आपश्रौ १, ६,
२; २, ८, १; बौश्रौ १, १३ : ५;
भाश्रौ १, ५, १४; २, ७, १३;
माश्रौ १, २, ५, २३; वाश्रौ १,
३, ३, ३; वैश्रौ ३, ५ : ३^f; हिश्रौ
१, २, ६७; जैश्रौ १३ : ९.

आखरे-ष्ठा^d- -ष्ठाः वाश्रौ १, २, १,
३३^g.

आ-खात-, °खान- आ/खन् द्र.

आ/खिद्, आखिदति भाश्रौ १०,
१९, ९; २०, १०; हिश्रौ ७, ३,
२३.

आ-खिष आपश्रौ १०, २८, १; २९,
९; वैश्रौ १२, १९ : २४.

आ-खु- प्रभृ. आ/खन् द्र.

आ/ख्या, आख्याति शैशि १७६.

आचख्यौ वृदे ५, ३६; आचख्युः
वृदे ८, ७८; आ...अख्यत् अत्र
१८, ३१.

आख्यायते वाधूश्रौ ४, २१ :
४; ५; जुसू ३, ३ : ४; ५;
आख्यायातै वाधूश्रौ ४, २१ : ४.
आख्यापयते आपश्रौ १८, १९,
१०; बौश्रौ १२, १५ : २४; हिश्रौ
१३, ६, ३५; आख्यापयन्ते शाश्रौ
१५, २७, १; आख्यापयत आश्रौ
९, ३, १३; शाश्रौ १५, २७, १.

आ-ख्या^h- पाउञ्च ४, २३३; -ख्यया
जैश्रौका ४; १९; -ख्या शाश्रौ
१, १६, २; लाश्रौ ८, ४, ५; ८;
जैगृ २, १ : ३; द्रागृ १, १, २०;
मीसू १, १, ३०; ३, १९; ९, २,
४३; -ख्याः शुप्रा १, ३३;
-ख्याम् वैध १, २, १०; -ख्या-
याम् पा ४, १, ४८; पावा ४, १,
१५; ४८.

आख्या-ग्रहण- -णम् पावा १,
४, ३.

आख्या-विकार- -रः मीसू १०,
१, ३२.

आख्याविकार-त्व- -त्वात्
मीसू १०, ४, ५७.

आख्या-संयोग- -गः मीसू
१०, ३, ६.

आ-ख्यात, ता^b- -तः अप २६, ५,
९; -तम् बौश्रौ २०, ४ : २१ × ×;
या १, १, ६, २८; पावा २, १, १;
७२; -तस्य या ७, १; -†ताः
आपमं २, १८, ४१; भागृ २, ९ :
१६; हिगृ २, ९, ४; याशि २, ३६;
-तानाम् माशि ६, ४; -तानि
अप्रा १, ३, ३; ६; मीसू २, १,
४; -ते आश्रौ १, १२, ३१;

काश्रौ ५, ५, ९; कौसू ९, ९;
वृदे ८, ८५; शुप्रा ५, १६; शौच
४, ९२; नाशि २, ७, ७; पावा
१, २, ३७; २, ४, ५४; -तेन या
१, १; अप्रा ३, २, ६; शौच ४,
१; पावा २, १, ७२; -तेभ्यः या
७, १४.

आख्यात-ज- -जानि या १,
१२ⁱ.

आख्यात-पद-विकरण^j- -णाः
भासू २, १.

आख्यात-पर^k- -रः भासू १, ७.

आख्यात-पूर्वे^l- -र्वम् शुप्रा ६,
११.

आख्यात-शब्द- -ब्देन वृदे १,
४४.

आख्याता(त-आ)मन्त्रित^m- -तम्
अप्रा १, १, १८.

आख्यातिक- पा ४, ३, ७२.

आख्यातो (त-उ)त्तरⁿ- -रम्
आपगृ १५, ९.

आ-ख्यातुम् अप १९^o, १, २.

आ-ख्यातृ- -ता गौध १०, ४४;
पा, पावा १, ४, २९; -त्रे आश्रौ
९, ३, १४; शाश्रौ १५, २७, १.

आ-ख्यान^p- -नम् आश्रौ ९, ३, १३;
शाश्रौ १५, २७, १^q; सु ३१, ७;
वृदे १, ५३; या ५, २१; ११,
१९; २५; ३४; १२, ४१; -नात्
पावा ३, १, २६^r; -नेषु वैताश्रौ
३६, २४.

आख्यान-परिप्रश्न- -श्नयोः पा
३, ३, ११०.

आख्यान-संयुक्त, क्ता- -क्तम् वृदे

a) पाप्मे. पृ ४८४ ० द्र. । b) सस. उप. भाप. < उप/कृ [विक्षेपे] । c) विप. (सृद्-) । उस.
उप. कर्मणि अप् प्र. । d) वैप १ द्र. । e) पाप्मे. वैप १, ६१९ j द्र. । f) °स्थः इति पाठः ? यनि. शोधः (तु.
आपश्रौ. प्रभृ.) । g) भाप., नाप. । h) विप., नाप. (क्रियापद-) । i) कस. > षस. । उप. =विकार- ।
j) विप. । बस. । k) समाहारे द्रस. । l) भाप., नाप. (इतिहासपुराणादि-) ।

७,८४; -क्ता या १०,१०;४६.
आख्यान-समय^०- -यः या ७,७.
आख्याना(न-आ)ख्यायिके(का-
इ)तिहास-पुराण- -गेभ्यः पावा
४,२,६०.

आ-ख्यापयमान- -नाः आगृष्ट, ६,६.
आ-ख्याय आश्रौ १२,८,२४; वैश्रौ
१६,५ : ९; हिश्रौ.
आ-ख्यास्यत्- -स्यन् आश्रौ १०,
६,१२; हिश्रौ.

आ-ख्यायिका^०- -काभ्यः पावा ४,
३,८७.

आ-ख्येय- -ये पावा १,४,५१.

आ-चिख्यासत्- -सन् आपश्रौ २०,
६,७.

आ-चिख्यासा- -सा वृदे १, ३६;
या ७,३; -साम् वृदे १,५८.

आ/गच्छ, गम्^० आगच्छति आपश्रौ
६,१७, ११; बौश्रौ; पावा १,४,
२३; आ...गच्छति वाधूश्रौ
३,७७ : ५; अप १,१८,१;१९-
२०,१;४; अत्र १५,७१; ऋभा-
(गच्छति)बौश्रौ २६,१५:६; अत्र
१५,७; १०^३; ११^३; आगच्छतः
कौसू ७८,१०; आगच्छन्ति काश्रौ
२१,४, २३; बौश्रौ; आगच्छामि
बौश्रौ २, ३ : १८; आगच्छान्
माश्रौ २, ५, ५, २११; आ...
गच्छान् या ४,२०१; ऋभागच्छन्तु
आपश्रौ ४,१२, ६; १३,८^३; ९,
१०,१६^३××; भाश्रौ; हिश्रौ ६,
३, २०^२; आ...आगच्छन्तु^०
बौपि २, ९, ५; ११, २;
ऋभा...गच्छताम् या १२,४;

आगच्छन्तु हिगृ १,२३,१; शंघ
२११; या ११, १८; ऋभा...
गच्छन्तु बौश्रौ २,९ : १२; भागृ
२, ११ : ८; जैगृ २, १ : ५;
ऋभागच्छ भाश्रौ ५,१८,१; जैश्रौ;
ऋभागच्छतात् बौश्रौ १८,४६ :
९; ऋभागच्छतम् आश्रौ ४, २,
३; शाश्रौ १५,८,२०; ऋभा...
गच्छतम् आश्रौ २,११,१९; ४,
१५,२; ७,१०,५; शाश्रौ १०, ४,
५; ऋभा(गच्छतम्)आश्रौ ४,१५,
२^३; ७,११,२२; शाश्रौ; आगच्छत
कागृ ६३, ४१^३; या ११, १५;
१२,४०; ४२; ऋभागच्छतऽआग-
च्छत जैश्रौ ३ : १७; दाश्रौ १,३,
१०; लाश्रौ १,३,३; आ...गच्छत
आश्रौ २, १९, २२१; ऋभाग-
च्छत् बौश्रौ १४, ५ : २९; ३६;
वाधूश्रौ ४,९७:८; अप ५८^२,१,
९; आगच्छन् बौश्रौ २,७ : २१;
आगच्छः आपमं २, १६, ४;
आगच्छेत् काश्रौ २४, ६, २५;
आपश्रौ; आ...गच्छेत् अप १,
१८-२०, २; आगच्छेयुः बौश्रौ
१८,४४ : १३१.
आ(गमन्ति) शाश्रौ १०,७,७१;
आ...गमन्तु आश्रौ ३, ७,
१०१; बौश्रौ २, ९ : १२;
भागृ २, ११ : ८; ऋभा(गमन्तु)
वैगृ २,२ : ६; ऋगृ २,१,१८६;
ऋभा...गमेत् वैताश्रौ १७, ८;
कौसू ८९, ६; ऋभा(गमेत्)कौसू
३४, १३; अअ २, ३६; आगमेः
आपश्रौ ४,१२,१०^६.

आ...गन्तु शाश्रौ १८,१८,४१;
आ...आगन्तु^० अगिगृ ३,३,१ :
२३; वैगृ ४,४ : ५; ऋभा(गन्तु)
आश्रौ ८,११,१; शाश्रौ ६, १०,
२; बौश्रौ २,२१:१२; १३,१५ :
६; १६ : ६; ३१ : १५; ३६ : ९;
हिश्रौ २२, ३, ४; ५, २; आ...
गताम् शाश्रौ ८,१९,११^३; आ...
गन्ताम् गौपि २, ५, १५१^३;
ऋभागहि आश्रौ ३,१४, १३××;
शाश्रौ; मागृ २,७,१^३; या ३,२०;
५, २२; १०, ३६१^३; ३७१^३;
आ...आगहि आश्रौ ६,४,१०;
शाश्रौ ९,१६,१; ऋभा(आगहि)
आश्रौ २, १८, १९; शाश्रौ;
ऋभा...गधि आश्रौ ७, ८, २;
शाश्रौ १२,२५,६; वैताश्रौ ४१,
२१; ऋगृ ५, ५९; ऋभा(गधि)
साअ १,३९३; अत्र २०,६४.
ऋभागतम् आश्रौ १,६,१××; ४,
७, ४^३; शाश्रौ ५, १०, ८××^३;
आपश्रौ; ऋभा...गतम् आश्रौ
८,११,१; काश्रौ; ऋभा(गतम्)
शाश्रौ ७, १०, ११; ऋगृ २,७,
७०; ऋभा...गन्तम् आश्रौ ५,
१०,२८; शाश्रौ ७,११,२; १२,
२,१५; ऋभा(गन्तम्) आश्रौ ९,
११, १६; वैताश्रौ २७, २९;
ऋगृ २,५,७१; ८,९; अत्र २०,
१३९; ऋभागत, >ता आश्रौ
२, ९, १४; १८, ४; शाश्रौ; या
१२,४०^३; ऋगृ ८,३१; ऋभाग-
न्त, >न्ता आपश्रौ १२, २०;
१०; बौश्रौ; माश्रौ १,१,२,१२^३;

a) षस. । b) नाप. (काव्य-भेद-) । c) पावा १,३,२१ परामृष्टः द्र. । d) पाभे. वैप १,६२० g द्र. ।

e) सप्र. गच्छन्तु <> गन्तु इति पाभे. । f) सपा. आगच्छत <> आगन्त <> आपश्रौ १,७,१३ आगन्तु इति,
माश्रौ १,१,२,१२ एत इति च पाभे. । g) पाभे. वैप १,६२२ । द्र. । h) पाभे. वैप १,६२० m द्र. । i) पाभे.
वैप. १,६२१ O द्र. । j) सपा. आगहि <> आजहि इति पाभे. । k) पाभे. वैप १,६२२ b द्र. ।

(आ)गन्त >न्ता ऋप्रा ७, ३११; ऋआ...गन्तन आश्रौ ५, ५, १९; या ११, १५०; ऋआ (गन्तन) शाश्रौ १०, ६, २०××; ऋअ; ऋआगम्यात् बौश्रौ १४, ७ : ७××; भाश्रौ; आ...गम्यात् बौश्रौ १४, ९ : ३४××; जैश्रौ; ऋआ...गम्याः वाश्रौ १, १, ३, १६; द्राश्रौ १२, ३, २४; लाश्रौ ४, ११, २२; (आ)गम्याः चाअ ३० : १२१.
आ(आ-अ)जगन् शाश्रौ १८, २२, ६१.
ऋआ...जगम्यात् आपश्रौ १८, ५, १; वौश्रौ ११, ८ : २७; वैश्रौ १७, १४ : १; हिश्रौ १३, १, ५८; गोपि २, ५, १५; ऋआ (जगम्यात्) काश्रौ १४, ४, ११; वाश्रौ ३, १, २, ८; वैश्र १, १६ : ३; ४, ४ : ६; २३; ५, १५ : ३; वृदे ५, ११७; शुअ १, ५७०; ?आ...जगम्या^a हिश्र १, ८, ४१; ?आ(जगम्या)^a वैश्र २, ७ : ९१.
ऋआजगाम, >मा शाश्रौ १८, ४-५, ७; बौश्रौ; माश्र २, १७, १^b; या, १, १७^b; तैप्रा ३, १०^c; आ (जगाम) अअ ७, २०१; आजगमतुः ऋवाधूश्रौ ४, ७५ : ११; २९; वृदे ५, १२४; आजगमुः बौश्रौ १८, २६ : १०१;

या १२, ४२^d; ऋआजगन्थ, >-न्या आपमं २, ११, २२; शुप्रा ३, १२९^e; आगमिव्यति कौस् २४, ३७; या ६, ३२; माशि; आगमिव्यन्ति या ४, २०; १४, ३१; ऋआगमिव्यामहे आमिगृ ३, ४, ४ : १७; बौपि ३, २, ९^f; ४, १६; ऋआ-गमत् आपश्रौ १४, २९, १; अप ३२, १, ३१; ऋअ २, ५, ३६; ऋआ...गमत् आश्रौ ५, ९, २१; शाश्रौ ८, १६, १; आ(गमत्) कौगृ ३, २, ६१; ऋआ-गमन् शाश्रौ ७, १०, १४; आपश्रौ १४, १६, १^f; हिश्रौ १५, ५, १^f; लुस् १, ३ : १७; अप्राय ६, १^f; ऋआ...गमन् शाश्रौ ८, २०, १; शांगृ ३, २, ९^g; आ (गमन्) शाश्रौ ७, १०, १४^f; आ-गमः भाश्रौ ४, १८, ७^f; ऋआ-(आ-अ)गमत् आश्रौ ८, ११, ४; शाश्रौ १०, ९, १७; बौश्रौ १७, ४० : २२; निस् ३, ६ : २८^g; आपमं २, ७, १९; पागृ २, ६, १७; आमिगृ १, ३, ३^h; ३, ४, १ : १९; माश्र २, २० : १; \$या २, १९; ५, २; आ-गत् कौस् १३५, ९१; ऋआ(आ-अ)गन् आश्रौ ४, ४, ४; शाश्रौ; या ५, २; शाश्रौ २, ९, ८; ऋआ...अगन् आपमं १, ७, ११; कौस् १९, २२; ५३,

१७^h, ५५, २^h; ८२, ४१; १३८, ५^h; ऋआ-गन् आपश्रौ २१, ३, १२ⁱ; आपमं; कौगृ ५, ८, ५ⁱ; आमिगृ २, ४, २ : ३ⁱ; हिश्र १, २८, १ⁱ; ऋआ...गन् आपमं २, ९, १२^k; १०, २; पागृ १, ३, १५^k; माश्र २, २३ : १०^k; वैश्र २, १६ : ४^k; ९^k; हिश्र १, १३, ३^k; कौस् १६, ३०; अपं २ : २५; अअ ३, ४^l; ऋआ(आ-अ)गमन् आपश्रौ ४, १, ९; भाश्रौ ४, २, १; हिश्रौ १, २, ५; हिश्र १, १८, २; ऋआ...अगमन् आश्रौ ५, १, १९; ९, ९, ८; शाश्रौ; आपश्रौ ४, १२, ५^l; बौश्रौ ३, १९ : ७^l; भाश्रौ ४, १८ : ३^l; वैश्रौ ७, ६ : ११^l; हिश्रौ ६, ३, १३^l; ऋआ(अगमन्) वैताश्रौ २१, २४; बौपि २, ८, ५; कौस् १९, १; २१, ८; अप १६, १, ३; अअ २, ६, २८; अअ ४, २१; ऋआ(आ-अ)-गमम् बौश्रौ ४, ११ : ७; ५, ९ : २३; ८ : १० : २६; १७, ३८ : १५; जैश्रौ २१ : १७^m; द्राश्रौ ६, ४, १२^m; लाश्रौ २, १२, १३^m; आपमं २, ६, ६^m; पागृ ३, १३, ४ⁿ; ऋआ (आ-अ) गन्म शाश्रौ २, १५, २; काश्रौ; ऋआ...अगमन् आश्रौ ३, १०, १२; ४, ३, २; काश्रौ; ऋआ(अगमन्) शाश्रौ ३, ३, ३;

- a) पाठः ? शोधाऽर्थं वैप १, ६२२ r द्र. । b) पाभे. वैप १, ६२३ b द्र. । c) पाभे. वैप १, ६२३ a द्र. । d) पाठः ? शोधाऽर्थं वैप १, ६२३ e टि. द्र. । e) पाभे. पृ ३८७ l द्र. । f) पाभे. वैप १, ६२३ l द्र. । g) पाभे. वैप १, ६२७ c द्र. । h) पाभे. वैप १, ६२४ h द्र. । i) आ...आगन् इति पाठः ? यनि. शोघः (तु. शौ ३, १०, ८) । j) पाभे. वैप १, १०२४ j द्र. । k) सपा. आ...गन् <> आ...अगत् <> आ...गात् <> आ...आगात् इति पाभे. । l) वैप १, १०६२ h द्र. । m) पाभे. वैप १, ६२४ m द्र. । n) आगम इति पाठः ? यनि. शोघः (तु. BC. प्रसृ.) ।

आपश्रौ १४, २८, ४; २४, १३, ३; बौश्रौ.

†आ...अगमि आश्रौ ६, १, २; ७, ८, १; शाश्रौ १२, ११, १६.

आगमयेत् गोश्रु १, ५, १३; आगमयेत् आपश्रौ ९, २, ४; ५; भाश्रौ; वैताश्रौ १७, ८†^३; आगमयेरन् बौश्रौ २३, ८ : ३३; २६, ९ : ३.

†आगनीगन्ति हिश्रौ १४, ३, २९; निघ २, १४; या ९, १८†; पा ७, ४, ६५.

आ-गच्छत्- -च्छतः कौसू ५२, ११†; विध २८, १९; वृदे ३, १३४; अज ६, ८२†; -च्छति जैश्रौ ८ : ७; -च्छन् शाश्रौ ८, ११, १४; या ७, ३१.

आगच्छन्ती- -न्त्याः माश्रु १, ११, ९†.

आ-गत, ता- -तः वैश्रौ २, १० : १३ × ×; हिश्रौ; पा ४, ३, ७४; -तम् आश्रौ ५, १, १४; काश्रौ; माश्रु १, १४, ५†^३; -तयोः वैश्रु ६, १८ : ६; -ता बौश्रौ १८, ४१ : १७; अप ६८, २, ४४; याशि २, ४८; -ताः बौश्रौ २, ९ : १४; आपमं; -तात् काश्रौ २५, ३, ७; -तान् काश्रौ १४, ३, ३; बौश्रौ; -ताम् बौश्रौ ४, ६ : ४४; विध १, ३०; -ताय अप्राय ३, ६; -तासु कौश्रु ३, ५, ६; -ते काश्रौ ५, ५, १३; ७, ८, २०; बौश्रौ; -तेन आश्रौ

४, ४, ४; -तेषु काश्रौ १४, ४, ८; बौश्रौ.

आगत-स्व- -स्वात् निसू ३, ८ : १९.

आगत-नन्दि, दि^०न्-^०त-प्रहारिन्-^०त-मत्स्या, त्स्या^०]-^०त-योधिन्-^०त-रोहिन्-^०त-वञ्चिन्- पाग ६, २, ८१.

आगत-हृणि^०- -णिः- -०णे या ५, ९.

आगतो(त-उ)पस्थान^०- -नम् आपश्रौ ६, २७, १; काठश्रौ २१; -नेन काठश्रौ २१.

आ-गति- -तिः अप ७१, १५, १०.

आ-गत्य काश्रौ १६, २, १६; आपश्रौ.

आ-गन्तु^०- -न्तवः मीसू ५, ३, ७; -न्तु बौश्रौ २१, १० : १६; आपश्रु ३, ५; हिश्रु १, ४४; आज्यो ५, १४†; -न्तुः आश्रौ २, ७, १६; माश्रु २, ३, ३; कौसू १३४, १; अप ५१, ४, ३; -न्तुना आपश्रु २, १६; काश्रु ३, २; हिश्रु १, ३७; शुप्रा ५, ७; -न्तुम् लाश्रौ ६, १०, १६; १७; आपश्रु ४, ५; हिश्रु २, ४; -न्तु शाश्रौ ५, २०, ३; -न्तुत् या ७, ४; -न्तुनाम् काश्रौ ३, ३, ६; -न्तुनि शाश्रौ १३, १६, ३; हिश्रौ २२, ४, २०†; -न्तौ कौसू ९३, ४१.

आगन्तु-क^०- -कम् बौश्रु ३ : ७; -काः आश्रौ ९, ७, १९.

आगन्तुक-स्व- -स्वात् मीसू १२, ३, ४.

आगन्तु-चतुर्थ- -र्थम् आपश्रु १, ७; हिश्रु १, ११.

आगन्तु-सम- -मम् काश्रु १, २७.

आगन्तु-स्थान- -नम् काश्रौ १२, ५, १.

आ-गन्तुम् अप ६३, १, ७.

†आ-गन्तु- -न्त्रा आपमं २, ३, १; आमिश्रु १, १, ३ : १; माश्रु १, २२, २; वैश्रु २, ६ : १४; हिश्रु १, ५, १; गोश्रु २, १०, १८; जैश्रु १, १२ : २६; द्राश्रु २, ४, ११; वैध २, २, ४.

आ-गन्तोस्(ः) वायुश्रौ ३, २६ : ६. १आ-गम^३- > -म-वत् मीसू १०, ५, १.

†आगमिष्ठ- -ष्ठाः आपश्रौ ५, १, ७; अप्रा १, १, ११.

२आ-गम^३- -मः निसू ४, १२ : १३; अप्र; या १३, १३; पावा १, १, २०; -मम् ऋप्रा ११, ४३; माशि १२, १; १४, २-५; याशि १, ४३; -मस्य पावा ३, १, ३; -मात् शाश्रौ ९, १, ८; †आपश्रौ^१ ६, २४, ३^३; ४; ६^३; †भाश्रौ ६, ४, ११^१; ६, १; माश्रौ १, ६, ३, ७†^१; शांश्रु ३, ६, २†^१; वाध १९, १०; या १, ४; -मे अप ४०, ४, ४; -मेऽ-मे^३ बौश्रौ २४, १३ : १; -मेन मीसू ६, २, २९; १०, ५, १६; -मैः माशि १५, ४; -मौ अप्रा ३, १, १८.

°आगम- -मः पावा १, ३, ६०; ७, ३, ३७.

‡आगम-कृशर- -रम् कौसू ३४,

a) पामे. वैप १, ६२२ III द. । b) पामे. वैप १, १०२६ II द. । c) तु. पाका. । d) विप. (पूषन्-). । वस. उप. भाप. । e) षत्. । f) विप., नाप. । गस. उप. तुन् प्र. (पाउ १, ६९) । g) विप. । स्वार्थे कः प्र. । h) वैप १ द. । i) भाप. पारिभाषिकम् । j) पामे. वैप १, ६२५ II द. ।

१३; २०; ३५, ५.

आगम-विकारि-लोपिन्- -पिनाम्
तैत्रा १, २३.

?आगम-शङ्कुली- -ली: कौस्
२३, ८.

आगम-सकारा(र-आ)दि- -दौ
शौच ४, ५९.

आगमा(म-आ)देश- -शानाम्
पावा ४, १, ३६^३.

आगमा(म-अ)नुदात्त्व-
-त्वात् पावा ३, १, ३४.

आगमा(म-अ)नुदात्ता (त-अ)
र्थ- -र्थम् पावा ३, १, ३; ४, १०३.

आगमा(म-अ)र्द्ध- -र्द्धे काशु ७,
३३.

आ-गमन- -नम् काश्रौ १९, ५,
१७; वीथ १, ३, १९; भाग्य ३,

१९ : १; -नाय अप ६४, १०,
४; -नेन शंध २५७; -नेषु द्राश्रौ

१०, २, १३; लाश्रौ ३, १०, १२.

आ-गमिन्- -पाग ३, ३, ३.
आ-गम्य काश्रौ ५, १०, १२××;
वीथौ.

आ-गम्य- -म्यम् विध १, ३७.

आ-गामिन्- पाउ ४, ७; -मिन्म्
विध २०, ४६; -मिषु वृदे ७,
१९.

आगामिनी- -नीनाम् या
४, १६^७; -न्य: या ५, ११.

आगामि-काल-समय-निबन्ध-
न-क्रिया^८- -तस्(ः)विध ९, १६.

आगामि-नृप-विज्ञापना(न^९-
अ)र्थ- -र्थम् विध ३, ८२.

आ-गामुक- पा ३, २, १५४.

आ-जिगमिषत्- -षन्तः आग्य ४,
१, ३१.

आ/गघ^{१०} > आ-गधि (त >) ता-
-ता या ५, १५१.

आगवीन^१- -नः पा ५, २, १४.

आगस्- -पाउ ४, २१२; - -फगः
आपश्रौ ७, ६, ५; भाश्रौ ७, ४, ७;
माश्रौ १, ७, ३, ४०; वाश्रौ १, ६,
२, १; हिश्रौ ४, २, ४; अप ४८,
६३^३; या ११, २४४^६.

आग-स्पृश^६- -स्पृशः सु ११, ४.

आगस्त-, -स्ती- प्रभृ. अगस्त्य- द्र.

१आगस्त्य- अगस्ति- द्र.

२आगस्त्य- अगस्त्य- द्र.

आ/गा (गतौ), आजिगाति अप्राय
६, ९१.

फआ(आ-अ)गात् आश्रौ ३, १,
९; ६, १२, २^७; ८, १, १८^१; ११,
३^१; आपश्रौ; या २, १९४^६;

फआ-गात् शाश्रौ ४, १६, ५^१;
पाग्य १, ५, ११^१; फआ...

अगात् वीश्रौ १७, ४३ :
१३^६; ४४ : १^६; काग्य ४०, ९;

गोग्य २, ९, १०^१; जैग्य^१ १, ११ :
६; ७; द्राग्य २, ३, २०^१; फआ-

(अगात्) भाग्य २, ३ : ८^३; ९;
अश्र ३, १२; आ...गात् आम्रिग्य

२, ६, ६ : १०^१; आ...आगात्

वीथ १, २, २७^१; फआ(आ-अ)
गुः शाश्रौ १४, १; आपमं २,

२०, ३२^३; फआ...अगुः कौस्
६०, २६; आ(आ-अ)गाः आपश्रौ

१६, २६, ६^१; हिश्रौ ११, ७,
५१^१; पाग्य ३, ३, ५; अप्राय ६,
२१; फआ(आ-अ)गाम् आपश्रौ

६, २७, ५^३; २९, १; आपमं २, ३,
२६^०; पाग्य २, २, ६^०; आम्रिग्य १,
१, ३ : ३^०; आपग्य ११, १^०; काग्य

४१, १०^०; भाग्य २, ४ : १०^०;
हिग्य १, ५, २^०; गोग्य २, १०,
१९^०; कौस् ५५, ९^०७^७.

?आगामम्^१ वाश्रौ २, १, १, ४५.

आ-गामिन्-, *मुक- आ/गच्छ द्र.
?आगायत्रम् अश्र २०, ७९.

आगार^१- -रे पाग्य १, ८, १०.

आगावीय^१- -यम् आग्य २, १०, ७.

आ/गुप्, फआ(आ-अ)जगुपम्
आपध १, ४, २४; हिध १, १,
१४३.

आ/गुर, आगुरते वीश्रौ १४, २९ :
३१^२.

आ-गुर- -गुरः आश्रौ ३, ८, ७;
४, २, ८; ९; शाश्रौ ५, ३, ७^२;

वीश्रौ २७, १४ : २८; माश्रौ १,
४, २, ६^३; -गुः आश्रौ १, ५, ४;
५; २, १६, १६; १९, १९; ४,

२, ७; वीश्रौ ५, १४ : ४; १०;
१६; २२; माश्रौ ८, १८, ९; १६;
२३; १९, ६; माश्रौ ५, १, ४, २२;

a) तु. भाष्य. । आगा^० इति पाका. । b) तु. दु. R.N. प्रभृ.; ल. प्युषीणाम् इति पाभे. । c) कस. >

सस. > बस. > कस. । d) कस. > षस. । e) वैप. १ द्र. । f) यनि. < आ-गो- इति । g) विप. । उस. पूष.
विसर्गलोपः । h) पाभे. वैप १, ६२४ c द्र. । i) पाभे. वैप १, ६२६ l द्र. । j) पाभे. वैप १, १०२४ j द्र. ।

k) पाभे. पृ ४८७ k द्र. । l) पाभे. वैप १, ६२४ h द्र. । m) पाभे. वैप १, ६२७ f द्र. ।
n) पाभे. वैप १, १०२४ d द्र. । o) पाभे. वैप २, ३खं. माश्र ११, ५, ४, १ द्र. । p) आगम् इति पाठः ? यनि.

शोधः (तु. BC. आपमं. प्रभृ. च) । q) पाठः ? आमाम् इति वा अर्धामाम् इति वा शोधः संभाव्येत । सपा. माश्रौ
६, १, २, १८ अमीदाम् इति पाभे. । r) = अगार- । s) = सूक्त-विशेष- । < आ गावः ऋ ६, २८, १ ।

वैश्री ६, ९ : २; ९, ८ : २; ८; १३;
 ९ : १; हिश्री ५, ४, ६५; ६७.
 आगुः-प्रणव-वषट्कार- -राः
 आश्री २, १५, १२.
 आगुः-वषट्कार- -रौ आश्री २,
 १५, १५^६; ५, ४, ५.
 आ-गुर^६- -रे बौश्री ६, २ : २४^६.
 आ-गूर्ण-> ं-मात्र-> श्रुति-
 -तेः काश्री २५, ११, २.
 आ-गूर्त-> ंतिन्- -तिनः माश्री
 ५, २, ५, १०; -तिनम् निसू ३,
 १ : २५; -तीं माश्री ५, २, ५, १.
 आ-गूर्य आश्री १, ५, २४; २९; शाश्री.
 आ-गुल्फ^६- -ल्फम् शंघ ७८.
 आ/गु(>गू)ह, आगूहति आमिगु
 १, ३, ४ : १९.
 आ/गृह, आगृहीतम् अश्र ११, ९.
 आजिघृक्षत्- -क्षन्तः निसू ५, ७ : २१.
 आ-गो-दोहन-काल^६- -लम् भागु
 ३, १४ : २५.
 आ-गोर्-दोह-काल^६- -लम् बौगु
 २, ९, १.
 आ-गोर्-दोह-मात्र^६-> ंत्र-
 क्षण^६- -गम् आमिगु २, ६,
 ५ : १.
 आग्ना°, आग्नि°, आग्नी°, आग्ने°,
 आग्न्या° प्रमृ. अग्नि-द्र.
 आ/अन्थु> आ-अन्थ अप १३, १, ७.
 आअयण-प्रमृ., आअहायण-, आअप्रा-
 यण-प्रमृ. १अप्र-द्र.
 २आअयण- २अप्र-द्र.
 आघट्टि'- -ट्टिः बौश्रीप्र ३१ : २.
 आघा(त>ट>)टा- आ/हन्-द्र.
 आघाटि'-(>आघाटि-शाला- पा.)

पाग ६, २, ८६.
 आ-घा(टि>)टी-, °तुक- आ/हन्-
 द्र.
 आ/घुप्, आघोषेथाम् माश्री २, २,
 २, १५^६.
 आ-घोष- -षः या ५, ११.
 आ-घोषि(त>)णी'- -ण्यः शाश्री
 ४, १९, ८.
 आ/घृ^६, ँआजिघर्मि आपश्री १०,
 २३, २; बौश्री; ँआ...जिघर्मि
 काश्री १६, २, २२^म; आपश्री;
 माश्री ६, १, १, २०^म; वाश्री १,
 ४, १, १०^म; २, १, १, १५^म; आ-
 (जिघर्मि)माश्री ६, १, १, २०;
 वाश्री १, ४, १, १०; शुभ्र २, २७^म.
 आघारयति आपश्री ८, ७, २८; ८,
 ३×४; काठश्री; आघारयतः बौश्री
 ५, ७ : ३; ८ : ९; आघारयेत् आपश्री
 २, १४, ८; ११, ३, ६; बौश्री.
 आ-घार^६- -रः माश्री ६, १, ३, १४;
 वाश्री; -रम् काश्री ३, १, १२;
 आपश्री; -रयोः आपश्री २, १२,
 ८; -रस्य हिश्री ६, १, ४; -रात्
 माश्री ८, १४, ४; माश्री १, ८, ३,
 ११; ६, १, ३, ४; कागु २५, ८;
 -राभ्याम् बौश्री १०, ३८ : ३^६;
 -रे आपश्री २४, २, २; बौश्री;
 -रौ काश्री १, ८, ४१; बौश्री.
 आघार-पथ- -थम् बौश्री २०,
 १३ : १८.
 आघार-पुनर्वषट्कार- -रौ
 आपश्री १२, २१, ८; वैश्री १५,
 २६ : १२.
 आघार-वत्- -वान् बौगु १, ४,

३९; २, ६, २४; १०, ९.
 आघारवती--तीः बौश्री १४,
 ५ : १८.
 आघार-विधान- -नम् वैगु १,
 ९ : १.
 आघार-समिध^६- -मिधम्
 आपश्री ११, ३, २; माश्री १२,
 २, २०; माश्री १, २, ६, १०; ६,
 २, ६, ९; हिश्री ७, ४, १४;
 -मिधौ आपश्री १, ५, ११; २,
 ९, ९; माश्री.
 आघार-संभेद^६- -दम् आपश्री
 २, १७, १; ३, ५, १; माश्री २,
 १६, ५; ३, ५, ४; वाश्री १, ३, ४,
 २६; २८; हिश्री २, २, ३; ४,
 ३; -देन आपश्री २, १९, ८.
 आघारा(र-अ)ग्निहोत्र^६- -त्रम्
 मीस् २, २, १३.
 आघारा(र-अ)ज्यभागा(ग-आ)
 ज्याहुति- -तयः मागु २, १०,
 ६.
 आघारा(र-अ)न्त- -न्ते वैगु
 ६, २ : १४; ३ : २; ६ : ८;
 १०-११ : २.
 आघारा(र-अ)ग्नी-सामिधेनी-
 -न्यः माश्री ५, २, १०, ९.
 आ-घारयत्- -यन् आपश्री २, १२,
 ७; १४, १.
 आ-घारयिष्यत्- -ष्यन् वैश्री ६,
 ३ : १; हिश्री २, १, १४.
 आ-घार्थ काश्री ३, १, १२ × ४;
 आपश्री.
 आ-घार्थमाण- -गम् आपश्री ४, ९,
 ४; बौश्री; -णे माश्री १, ४, १, २२.

a) °गु इति पाठः? यनि. शोधः । b) वैप १ द्र. । c) पाभे. वैप १, ६२७ k द्र. । d) अस. वा. क्वि. । e) अस. > षस.

> षस. । f) परस्परं पाभे. । g) अस. > षस. > प्रमाणे मात्रञ् प्र. । h) मलो. कस. । i) ँअधि-विशेष-। व्यु. ? । j) अर्थः
 व्यु. च ? । तु. पासि. । आटि- इति भारुडा. प्रमृ., ? आपारि- इति पाका. । k) पाभे. वैप १, ६२८ d द्र. । l) विप. (रुद्र-सेना-)
 गस. । m) पाभे. वैप १, ६२८ d द्र. । n) नाप. (Lआघारावधिक-] प्रदेश-). कास. । उप. अधिकरयो बञ् । o) समाहारे द्रस. ।

आ-घृणि^a- ण्ये माश्रौ ४, ४, ४२^b;
वृदे ३, ९५; -णिः वृदे ३, ९६;
निघ ४, २; या ५, ९६; अत्रा ३,
४, ११^c; -०णे या ५, ९६.

आ-घ्नत्-आ-घ्नान्, ना-आ√हन् द्र.

आघ्न्य- अघ्न्य- द्र.

आ√घ्रा, आजिघ्नन्ति आपश्रौ २०, २१,
८; हिश्रौ १४, ४, ५३; ऋआजिघ्न
काश्रौ १३, ४, १७; आपश्रौ;
आजिघ्रेत् वागृ ३, ९; आजिघ्रेयुः
भागृ २, १०, ९; हिगृ २, ८, १०.
आघ्रापयति काश्रौ १३, ३, १७;
१४, ३, १०, ४, १२.

आ-घ्रात- -तम् सुधप ८८ : ३.

आघ्रात-मात्र- -त्रात् वृदे ७, ६.

आ-घ्राय आगृ ३, ६, ७; विध.

आङ्^d- आङ् पा १, ४, ८९; २, १, १३;
पाग १, ४, ५७; ५८; आङ् पा
६, १, १२६.

आङ्^e पा ६, १, ७४.

आङ्^f पा २, ३, १०.

आङ्-अभ्यास- -सयोः पावा ६, १,
१०६.

आङ्-ग्रहण- -णे पावा ६, १, ८४.

आङ्-पर- -रम् कौशि ४९.

आङ्-पूर्व- -र्वात् या ११, २४;
पावा ५, २, १४; ६, १, २८.

आङ्-लोप- -पः पावा ३, १, २६.

आङ्कुशायन- २अङ्कुश- द्र.

आङ्ग-, आङ्गविद्य- प्रभृ. १अङ्ग- द्र.

आङ्गार- अङ्गार- द्र.

आङ्गारवैणव- अङ्गारवेणु- द्र.

आङ्गिग- ३अङ्ग- द्र.

आङ्गिरस- प्रभृ. अङ्गिरस्- द्र.

आङ्गीरस- अङ्गीरस्- द्र.

आङ्गुलिक- अङ्गुलि- द्र.

आङ्गुष^g- षः अत्र ४८, ११५; निघ
४, २; या ५, ११६; -वेण या
५, १११.

आङ्गुय- ४अङ्ग- द्र.

आ(आ√अ)च्, ङ्च् > आक^h- >

ऋआके अत्र ४८, १०९; निघ २,
१६; ३, २६.

ऋआके-निपⁱ- -पः निघ ३,
१५; -पासः अत्र ४८, ८५.

आ(आ-अ)च्य > च्या आश्रौ १, १२,
३१××; शाश्रौ; शुअ २, ३९४.

आच^j- > आच-पराच^k- -चम्,

आचो(च-उ)पच^l- -चम् पाग
२, १, ७२.

आ√चक्ष्, आचष्टे आश्रौ ९, ३, १०;

शाश्रौ; पा; पावा ३, १, २६;

आचक्षते आश्रौ १, १, ७××;

शाश्रौ; ?आचक्षति^m वैध १,
२, ८; आचक्षताम् वौश्रौ ६,
३१ : २१; आचक्ष्व काश्रौ

२०, २, २२; वौश्रौ; ऋया १,
१७; १४, २; आचक्ष्मⁿ निघ ३,
१११; आSचक्षत् वौश्रौ १८, ४२:

४; आचक्षीत आश्रौ ९, ३, ९××;

शाश्रौ; आचक्षीरन् वौश्रौ २३,
१२ : २३; वाश्रौ; आचक्षीरन्

वौश्रौ १८, ४२ : २; ६.

आचक्षे अत्र २९, १, ३.

आ-चक्षण- -णः वौश्रौ ६, ६ : ६;

वौध; -णस्य लाश्रौ ९, ९, १०;

-णे शाश्रौ १०, १३, २८; १६,
१, २४.

आचतुर्य- २अचतुर- द्र.

आ-चन्द्रतारक^o- -कम् विध ७७, ९.

आ√चम्, चाम^p, आचामति शाश्रौ २,
७, १८; काश्रौ; आचामतः कौसू

१४०, ५; आचामन्ति आश्रौ ६,
१३, ९; आचामन्तु वाश्रौ १, २,
३, १५; जैगृ २, २ : ६; कौसू ८८,
२४; आचामस्व द्रागृ १, ५, ३२१;

आचाम जैगृ २, २ : ५; आचा-

मत कौसू ८८, २४; आचामेत्

आश्रौ ६, ५, ३; काश्रौ; आच-

मेत् वैगृ २, १६ : ६; वाध २३,
२३; आचामेयुः जैश्रौका

२०८.

आचामयति वौश्रौ १, १२ : २३;

२१ : १; आग्निगृ; आचमयति

कौसू २५, ३४; २६, १४; २७,
४××; आचमयन्ति आपश्रौ

१४, २१, २; आचामयेत् वैगृ

६४ : २; गौपि; आचमयेत्

आपध १, १५, ३; २, ५, ६.

आ-चमन- -नम् आश्रौ २, २, १०;

वौश्रौ; -नात् कौसू ८७, ५; वौध

४, ३, ५; -ने वौश्रौ २०, २३ :

१८; वौगृ २, ११, ४८; शंध.

आचमन-कल्प- -ल्पः आपध

२, ३, ५; वौध १, ५, ७६; हिध

२, १, ३६; गौध २, ५.

आचमन-क्रिया- -याम् कप्र २,
१, २.

आचमन-प्रभृति- -ति शाश्रौ १,
१, ८.

आचमन-विधि- -धिम् आग्निगृ

२, ६, १ : १.

आचमना (न-आ) दि- -दि

वैताश्रौ १५, १४; -दिना कप्र

२, ८, १६; -दीनि वैगृ १, ५ : २.

a) वैप १ द्र. । b) सपा. तैआ ४, १६, १ अङ्घृण्ये इति पाभे. । वैप १, ६२८ i यनि. तैआ. स्थलं परि-
हृत्यभ्यम् । c) पाभे. वैप १, ६२८ i द्र. । d) = १ आ । इ इत्यनुबन्धमात्रं द्र. । e) वैप १, ६२९ g द्र. । f) पाठः ?
आचक्षीत इति शोधः । g) तु. दे. R.N., वैतु. ल. अ-चक्ष्म इति ? । h) अस. वा. क्वि. । i) दीर्घः (पा, पावा ७, ३, ७५) ।

आचमना(न-अ)न्त^a- -न्तम्
 माश्रौ ५, १, १०, १५.
 आचमना(न-अ)र्थ- -र्थे गौघ
 १०, ५२.
 आचमना(न-अ)र्थ^a- -र्थे बौघ
 १, ७, २८; -र्थम् वाघ २९, १७.
 आचमनीय, या- -यम् शाश्रौ
 ४, २१, ५; २५; द्राश्रौ; -या:
 वागृ ११, ११; -यान् आगृ ४,
 ६, ४; -याभिः जैगृ १, १९: ३५;
 -येन आगृ १, २४, १३; २८;
 आमिगृ २, ६, ६: २७; भागृ २,
 २३: ४.
 आचमनीय-क^b- -कम्
 आमिगृ २, ६, ६: ५.
 आचमनीय-प्रथम^a- -मैः
 मागृ १, ९, ६.
 आचमनो(न-उ)च्छिष्टशोधनो-
 (न-उ)त्थापन-विसर्जन^c- -नात्
 वैगृ ४, ४: २०.
 आचमयित्वा कागृउ ४१: २०.
 आचमय्य बौश्रौ २, १४: ८; १५,
 ३: १७; वैश्रौ.
 आचम्य आश्रौ १, १, ४x५; शाश्रौ.
 जैगृ २, २: १३^d; आचम्या-
 आचम्य जैश्रौका २०८; वैध
 २, ९, ११.
 आचान्त,न्ता- -न्तः वैश्रौ ४, २:
 १; हिश्रौ; वाघ ३, ३८^e; -न्तम्
 आमिगृ १, १, २: ५३; वैगृ; -न्तस्य
 बौध १, ५, २०; -न्ताः जैश्रौका
 १३०; -न्तान् आगृ ४, ७, २;
 आमिगृ; -न्ताम् आमिगृ १,
 ६, १: ११; २१; -न्ताय बौघ

१, २, ३३; ४०; ४३; -न्तायाः
 आमिगृ २, १, १: ११; वैगृ ३,
 १०: ८; हिगृ २, २, ५; -न्ते
 आमिगृ ३, ११, २: १५; -न्तेभ्यः
 आमिगृ ३, ३, २: २२; ११,
 ३: २१; वैगृ ४, ४: १७; -न्तेषु
 आगृ ४, ७, २३; २९; भागृ ३,
 १६: ८; गौपि २, ५, १.
 आचान्त-समन्वार(ब्ध >)-
 ष्धा^f- -ब्धायाम् हिगृ १, १९, ६.
 आचान्तो(न्त-उ)दक, का^g- -कः
 वाश्रौ १, १, १, १५; -काः गोगृ
 ३, ३, ८; ८, १८; ४, १०, १८;
 -काय आगृ १, २४, ३०; पागृ
 १, ३, २६; भागृ २, २४: ६;
 १४; -कायै भागृ १, २०: ६;
 -के जैगृ १, ११: ४; -केन
 गोगृ १, १, २.
 आचाम^h- -मम् आगृ २, ५, ५;
 -मस्य गोगृ १, ४, ३०; -मौ
 काश्रौ १९, १, २०.
 आचामत्- -मतः वैध ३, ४, १२;
 -मन्तौ बौश्रौ १५, ३: ५.
 आचामयत्- -यतः वाघ ३, ४२;
 बौध १, ५, ८९; विध २३, ५४.
 आचामयित्वा कागृ ६३, १९.
 आचाम्य अप ७, १, ११.
 आचाम्य- पा ३, १, १२६.
 आचय-, आचयक- आ/चि
 (चयने) द्र.
 आ/चर् (*ब्धा.), आचरति काश्रौ
 ३, ६, ८; १६, ४, १५; वैश्रौ १,
 ३: १२; वाघ २२, १; वैध १,
 २, ११; ३, ८, ४; १२, १२;

फाⁱ चरति आपश्रौ १६, ७,
 ४; वैश्रौ १८, ५: ३; हिश्रौ ११,
 २, २; आचरन्ति आपश्रौ १, ८,
 ७; ११, १०; बौश्रौ १, ३: १५;
 भाश्रौ १, १२, ३; वाश्रौ १, २,
 ३, १; वैश्रौ ३, ६: ११; हिश्रौ
 १, ३, १९; ऋप्रा ११, ३०; ६१;
 आचर आपश्रौ १७, २२, १;
 हिश्रौ १२, ६, ६; २६; या ५,
 २२; आचरत् वृदे ६, ११;
 आचरन् कागृ ५, २, १०; आच-
 रेन् काश्रौ १६, ४, १६; जैश्रौका;
 वैध १, २, ५^h; आचरेयुः विध
 २२, ६६.
 आचरित्ये शंघ १९८.
 आचरण- -णे बौध १, २, ५७.
 आचरत्- -रन् शाश्रौ १२, १७, ११ⁱ;
 वैश्रौ; -रन्तः जैगृ २, १: २;
 -रन्तम् या १४, ३ⁱ.
 आचरन्ती- -न्ती काश्रौ २५,
 १, १८; आपश्रौ; -न्तीः माश्रौ
 १, १, ३, ७; -न्तीम् आमिगृ ३,
 ५, ८: ४; बौपि १, ७: ६;
 हिपि ४: ८; -न्त्यौ या ९, ४०.
 आचरित- -तः या २, १०^j;
 ऋप्रा ११, १९; -तम् कौगृ ३,
 १२, ५; वाघ ३, ४५; विध ९३,
 १२; ऋप्रा ११, ९; ६३; पावा १,
 ४, ५१; -तेन आपध १, ८, ११;
 हिध १, २, ९९.
 आचरित-त्व- -त्वात् पागृ २,
 १७, १८.
 आचरित-विष(य >)या^k-
 -याः अप ६५, २, २.

a) विप. । बस. । b) स्वार्थे कः प्र. । c) समाहारे द्वस. । d) आचामय्य इति पाठः? यनि.
 शोधः (तु. संस्कृतः टि.) । e) चान्त इति पाठः? चाचान्तः (च, आ^o) इति शोधः । f) पाठः? । यनि. कस. इति
 मातृदत्तः । आचान्तः, सम^o इति संकेतुकः (तु. मूको.) Böht. [ZDMG ५२, ८५] । g) =भक्त-मण्ड- । उप. कर्मणि
 अञ् प्र. । h) आचरति इति w. । i) सपा. शौ १८, ३, ३ नीयमानाम् इति पाभे. । j) तु. BN.; ल. प्रसृ. चरितः इति पाभे. ।

आ-चरिष्यत्- -व्यन्तम् गोष्ठ ३,
१,११.

आ-चर्य माष्ट १,३,५.

आ-चर्य- पावा ३,१,१००.

आ-चार^१- -रः कौसू १,१९; वाध
६, १; ७; शंघ ७; आपध १,
२१,११; २,२३, १०; बौध १,
१,२५; हिध १,६, ४१; या ७,
४; ऋप्रा ३,२२; -रम् निस् ३,
३ : ११; वैष्ट २,६:४; वाध २९,
२०; शंघ ४५५; आपध २, ६,
१; विध ७१,९०; हिध २,२,१;
गौध ९,६७; या १,४; ऋप्रा ३,
२३; -राः वाध १, १०; -रात्
लाश्री ९, ७, ७; निस् २, १३ :
४५; आपध १,१,१; ३, ७,२३;
वाध ६,७^३; आपध १,४,८; विध
७१, ९१^५, हिध १, १, १२७;
पाप्रवा ५,१६; मीस् ६, २, ३२;
-रान् बौध ४,२,९; -रे पा ३,
१,१०; पावा ३, १, ११; पापवा
७; -रेण काष्ट ९,८; वाष्ट ८, ६;
माष्ट १,४,६.

आचार-प्रहण^२- -त्व- -त्वात् मीस्
८,४,६.

आचार-व(त् >)ती- -तीनाम्
वैष्ट ६७ : ८; माष्ट २,१४,१७.

आचार-सेविन्- -विनि विध
९९,१८; -वी विध ७१,८९.

आचार-हीन- -नम् वाध ६, ३;
-नस्य वाध ६,४.

आचारिक^३- -काणि काष्ट २५,७.

आ/चरण्य (<चरण-), आचरण्यत्
शाश्री २,४,३^५.

आ/चल् > आ-चाल्य कौसू ९१,५.

आ-चान्त- प्रभृ. आ/चम् द्र.

आ-चायम् आ/चि (चयने) द्र.

आ-चार्य^४- -र्यः आश्री ८, १४, १०;
१३; शाश्री ४, २१, १; आपश्री
६, २५, ६; बौश्री १७, ४३ : ६;
२०, १२ : २९; २९, १३ : २३^२;
जैश्री १७१; आपमं २,३,१२;
आष्ट १,२०,२; ६^५; ७; २२, १३;
कौष्ट १,२,३; २, १, २८; २, ३;
५; ११; ३, ६; ४, २; ४; ५;
७; ९; ११; १३; १५; २२;
७, ५; ९; १९; २०; २३; ८,
९^३; ३, ९, ५२; ५५; १०, ३५;
शाष्ट १,६,६; २, १, २७; २, ६;
३, १; ५, ९; ११; ७, ३; ७; ९-
१७; १९; २६; ६०; १२, २; ४;
८; ११; १६, २; १८, ४^३;
४, ८, २; १२; ६, १, २; ३, २;
पाष्ट १, ३, १; २, २, २०^३;
४, ३; आमिष्ट १, १, ३ : १९^५;
२, ४, ११ : १८; ५, १ : ४७;
४ : १७; काष्ट ४१, १६; २४,
१; बौष्ट १, २, ६५; २, ५, ३८;
७२; ३, २, २; ३, ३२; भाष्ट १,
७ : १०; माष्ट १, ९, १; ९; १३,
१८^५; २२, ५^५; २, १४, ३०; वाष्ट
११, १; वैष्ट १, ६ : १; ६, ७ : २,
हिष्ट १, ५, १०^५; गोष्ट २, १०,
१५; २०; २२; ३१; ३, २, ३०;
४, ८; १०; २९; ४, १०, २४;
जैष्ट १, ९ : २; १२ : १२; १६;
२२; २३; २५; २९^५; १७ : १०;
१९ : ४६; २, ९ : ३५; द्राष्ट
२, ४, १३; ३, १, २; ८; १०;
४, ४, २४; कौसू ५६, १७; भप
३७, ८, १; ६६, १, ५; ७०, ९, १;
वाध २, ३; ३, २१; ७, ६^५; शंघ

४३; आपध १, १, १४; ३, ४३;
५, २०; ८, ६; २७; २, ४, २४;
५, ४; ८, ६; १०, १; १४, ३;
२७, २१; बौध १, ५, ९९; विध
१७, १५; २८, ३८; ३०, ४६;
३१, २; हिध १, १, १३; ११८;
२, २१; ७०; ९४; ११५; २, १,
७७; ८४; १०८; ३, १४; ४, १;
५, २३९; गौध १, ११; २, ५७;
३, ३६; वृद्धे २, ९५; १३६; ४,
१३८; ६, ९; ८, ९०; शुभ्र ४,
१८६; अश्र ११, ५^५; या १,
४^५; -र्यम् आश्री ८, १४, १४;
आपश्री १०, १२, १४^५; वाधूश्री
४, ८९ : ३२; कौष्ट २, ५, ३; ६,
३; ८, ८; ३, ७, १२; ११, ५५;
शाष्ट २, ८, २; १८, १; ४, ५,
१३; ११, २३; आमिष्ट १, १, ३ :
५२; काष्ट ३, १; बौष्ट १, २,
६३^३; बौपि ३, १, ५; माष्ट १,
२, ९; वाष्ट ९, ८; गोष्ट २, १०,
१६; ३२; ३, २, ४५; ४, २७;
जैष्ट १, १४ : ७; १७ : १६;
१९ : ३१; द्राष्ट ३, १, २५; वाध
२, ४; ७, ४; आपध १, ४, २३;
६, १३; ८, १९; २८, ६; २, ५,
६; १५; बौध १, २, ५७^५; विध
२२, ८६; २९, १; हिध १, १, १४२;
२, ३६; १०७; ७, ४२; २, १,
८७; ९६; शैशि ८; -र्ययोः बौश्री
२०, २ : १२; ४ : ३८; ५ : २८;
७ : १३; ८ : १५; २४; १० :
१६; ११ : २४; १५ : १०;
५२; ५५; ५८; १८ : २३;
२२ : २; २३ : २४; २४ : २७;
२१, ३ : ५; ११; ३१; ५ :

a) =आचरण-। b) बस.। c) विप. (कर्मन्-). ततआगतीयष् ठक् प्र.। d) पाभे. वैप १,६३०
f द्र.। e) वैप १ द्र.।

१४; ८ : ३२; ९ : १७; ११ :
 ५; १२ : १७; १४ : १४; १६ :
 ५; ६; ११; १४; १७ : १२;
 २० : २६; २२ : ९; २४ : ८;
 १७; २२, ६ : १९; ९ : ४; ११ :
 १७; १३ : १४; १८ : १४; २३,
 ४ : १९; ९ : २५; १६ : ७;
 १९; १९ : ५; २५; ४६; -र्यस्य
 आश्रौ ८, १४, १४; लाश्रौ
 १०, १८, १२; निसू १०, ११ :
 ४; कौट २, ४, ३; ७, २६; ५,
 ३, २९; शांठ २, ७, ४; १२, ४;
 १४; ६, ३, ६; आमिठ ३, ७, २ :
 १८; काठ १, ९; ४२, २; बौट २,
 ५, ७२; बौपि १, १७ : ३७; माठ
 १, १, २; वाठ ६, ३; गोठ २, १०,
 १७; कौसू ४६, १४; आपध १,
 ४, २५; ६, ३५, २, ५, ११;
 बौध ३, ४, ७; ४, ८, २; हिध १,
 १, १४४; २, ५७; २, १, ९२;
 -र्याः आश्रौ ३, ४, १२; शांश्रौ ३,
 १६, २१; काश्रौ १, ३, ७; काश्रौसं
 ३३ : १९; बौश्रौ २४, २० : २;
 २२ : १२; ३०-३१ : १; ३७ : ३;
 २६, ९ : ५; २७, ११ : ११;
 द्राश्रौ १, ३, ३१; ६, २, १९; लाश्रौ
 २, १०, १९; ६, १, ६; १३; ७,
 ११, ११; ८, ५, १२; ९, १२, १५;
 १०, २, ६; ३, ८; ५, ४; १३;
 ७, ५; १०; ८, २; ९, ८; १०, ११;
 १४, ११; १६, १; वैताश्रौ १, ३१;
 ५, १३; ७, १६; निसू २, ७ : २;
 ८; ११; ८ : ३२; ९ : १८;
 ३१; १० : १९; ४, ५ :
 १५; ७ : ७; ११ : १४; १३ :
 १; ६; ६, ५ : १८; ७ : ५३;
 ११ : १५; ८, २ : ५२; ९,

४ : ६; ७ : ७; आठ ३, ४, ४;
 कौट २, ५, ४; शांठ १, १, १०;
 ४, १०, ३; आमिठ ३, २, ६ : १५;
 ५, १ : ५; ८; बौट १, ७, ४६;
 ३, १, १२; ४, ५, ३; ६, ३; बौपि
 १, १ : ४; ७; वाठ ९, १६;
 गोठ ३, ५, २; कौसू १४०, १८;
 अप्राय ३, ५; ८; ६, ८; अप ४३,
 ४, ५७; ६८, १, ११; वाध १३, ४८;
 आपध १, ७, १२; बौध २, ६, २९;
 १०, ५५; हिध १, २, ६९; गौध
 ४, २३; सुधप ८५; ६; बौश्रु २१ :
 १०; वृदे ५, ११२; ७, ३८;
 १११; या ७, २२; ऋप्रा १, ६३;
 १३, ३१; तैप्रा १, ४६; माशि
 १६, १३; दंवि १, ६; यागि २,
 ८४; नाशि १, ३, १३; २, ५, २;
 -र्याणाम् बौश्रौ २९, ४ : २६;
 द्राश्रौ ७, ४, २७; लाश्रौ ३, ४,
 २५; ६, ९, १५; गोठ ३, ३, १२;
 कौसू ६३, २४; वाध १३, ४८;
 आपध १, ७, ८; हिध १, ६, २२;
 वृदे २, १४३; तैप्रा ५, ३०; ९, ५;
 १३, ३; १४, ३; २५; पा ७, ३,
 ४९; ८, ४, ५२; -र्यान् वाध
 २०, १२; आपध १, ५, ७; बौध
 २, १, २४; हिध १, २, ७; पावा
 ४, १, ४९; ५, १, ९; -र्यान् सु
 ७, ४; आठ ३, ५, २२; पाठ २,
 १२, २; आमिठ २, ६, ३ : ५१;
 माठ १, ५, ६; गोठ ३, ३, १५;
 जैठ १, १४ : ८; कप्र २, २, ३-८;
 बौध २, ५, २९; -र्यान् आश्रौ
 ८, १४, ३; आठ १, २२, १०;
 १२; ३, ८, १; २; कौट १, ८,
 ३१; २, ३, १६; ७, २७; ३, १,
 १२; १०, ३२; ११, १; शांठ २,

६, ७; १५, ४; ३, १, १८; ४,
 १२, १; पाठ १, ८, १४; २, १,
 २२; ५, ८; ३, ३, १२; आमिठ
 २, ५, ६ : १३; आपठ १३, १९;
 काठ ४३, ११; बौट २, ५, ५२;
 ११, ३४; ऋमाठ १, ८ : १;
 १० : २; माठ १, २२, २१; वैठ
 २, १२ : ९; हिठ १, ६, १०;
 गोठ २, १०, ४०; गौपि १, ३,
 २३; जैठ १, १७ : १५; २२ :
 ३०; द्राठ २, ४, १०; ३१; कौसू
 ४६, ३१; आपध १, ३, ३१; ४०;
 २, ८, ७; हिध २, १, १०९; गौध
 २०, १३; -र्यै बौश्रौ २४, १२ :
 १६; कौट ३, ९, १०; शांठ ४,
 ७, ९; पाठ ३, १०, ३९; आमिठ
 ३, ६, २ : ४; बौपि १, ९ : १४;
 गोठ ३, ३, २५; हिपि ८ : ९;
 कौसू १४१, १०^४; २७; वाध
 ७, ५; १३, ३९; शंध ४६; आपध
 १, ७, २०; १०, ४; १०;
 २६, ११; बौध १, २, ५७^१; विध
 २२, ४२; २८, ४४; हिध १,
 २, ७७; ३, ३३; ३९; ७, २२;
 २, ३, ४४; -र्येण आश्रौ ८, १४,
 ७; पाठ २, ५, २९; अप २२,
 १, २; आपध १, ५, १८; हिध
 १, २, १९; -र्येभ्यः आश्रौ १२,
 १५, १३^१; ऋमाठ १, २, २ :
 ३०; ३, ११, ४ : २७; बौट ३,
 ९, ६; माठ ३, ११ : ४^१; २१ :
 १५^२; हिठ २, २०, १; ऋअ ३, ३;
 -र्येषु आठ ४, ४, २१; -र्यैः कप्र
 १, ८, २२; अप २२, २, ५; बौध
 २, १०, ५७; वृदे ५, ३९; अप्रा
 ३, ३, २१; शैशि २४५; ३०६;
 नाशि १, ८, ५; -र्यै बौश्रौ २०,

१२ : १४; बृदे २, १३२.
 आचार्यानी- पा ४, १, ४९; पाग
 ८, ४, ३९.
 आचार्यक^२-कम् नागि २, ७, १०.
 आचार्य-कल्प- -ल्पः जैगृ १, १९ :
 ३२; कौस् ९२, ३२; अप्राय ६,
 ८; -ल्पे निस् २, १ : २८.
 आचार्य-कुल- -लम् आपध १, ८,
 २२; २, २१, १; हिध १, २, १०;
 २, ५, १०९; -लस्य गोगृ ३,
 ४, ७; द्रागृ ३, १, १; -लात्
 हिगृ १, १९, १; -लाय आपध
 १, ३, ३३; हिध १, १, १०८;
 -ले भागृ १, ९ : १०; आपध १,
 २, ११; १३, १९; २, २१, ३; ६;
 हिध १, १, ४४; ४, ३२; २, ५,
 १११; ११४.
 आचार्यकुल-वासिन्- -सी
 आमिगृ १, १, ४ : ४५; हिगृ १,
 ८, १०.
 आचार्य-गीत- -तानि निगृ २, १ :
 ३२.
 आचार्य-जाया- -याम् बौगृ १, २,
 ५७.
 आचार्य-ज्ञाति-गुरु-स्व- -स्वेषु गौध
 २, ४४.
 आचार्य-ज्ञाति-प्रिय-गुरु-धनविद्या-
 नियम- -मेपु गौध १०, ४.
 आचार्य-तत्पुत्रस्त्री-दीक्षित-ना-
 मन्- -मानि गौध २, २४.
 आचार्य-तत्पुत्रस्त्री-याज्य-शिष्य-
 -ष्येषु गौध १४, २७.
 आचार्य-तस् (:) कौशि ४३.
 आचार्य-त्व- -स्वम् बैगृ ६७ : ७;
 मागृ २, १४, १८.

आचार्य-दार- -रम् आपध १, १४,
 २४; हिध १, ४, ५३; -रे आपध
 १, ७, २७; २६, ११; हिध १, २,
 ८४; ७, २२.
 आचार्य-दुहितृ- -तरि शंध ३८६.
 आचार्य-देश-शीलन- -ने पात्रा १,
 १, ४४.
 आचार्य-पत्नी- -स्त्रीः आमिगृ २,
 ६, ३ : ५२; बौध २, ५, २९;
 -स्त्रीभ्यः आमिगृ ३, ११, ४ : २८;
 बौगृ २, ११, ३४.
 आचार्य-पत्नी-पुत्र^२- > °ओ(त्र-उ)-
 पाध्याय-मातुल-श्वशुर-श्वशुर्य-
 सहाध्यायि-शिष्य- -ष्येषु विध
 २२, ४४.
 आचार्य-परिवेपण- -णे गौध १६,
 १५.
 आचार्य-परिषद्- -षदम् गोगृ ३,
 ४, २७.
 आचार्य-पितृ-सखि- -खीनाम् गौध
 ५, २७.
 आचार्य-पुत्र- -त्रे आपध १, ७, ३०;
 हिध १, २, ८७.
 आचार्य-पुत्र-भार्या^२- -र्याः कौस्
 १४१, २९.
 आचार्य-पुत्र-शिष्य^२- -प्याणाम्
 कौगृ ४, १, ५.
 आचार्य-पुत्र-शिष्य-भार्या^२- -र्यासु
 वाध १३, ४०; २०, १५.
 आचार्य-पुरोहित-वज्र-मुख^२-तस्
 (:) अप ३, १, ६.
 आचार्य-प्रधान^२- -नः कागृ ४, ३.
 आचार्य-प्रवर- -रम् आपध २४,
 १०, १७; बौध २४, २८ : ६;
 -रेण वैश्रौ ६, ५ : २; हिध २,

१, ५७; २१, ३, १७.
 आचार्य-प्रसूत- -तः बौगृ ३, २, १.
 आचार्य-प्राचार्य-संनिपात^२- -ते
 आपध १, ८, १९; हिध १, २,
 १०७.
 आचार्य-भोग^२- > °गीन- पावा ५,
 १, ९; पाग ८, ४, ३९.
 आचार्य-मति- -तिः द्राधौ ९, ३,
 २; लाधौ ३, ६, २१.
 आचार्य-मातृ-पितृ-हन्तृ- -न्तारः
 वाध १५, १९.
 आचार्य-राज (ज-ऋ) विकृ-संयुक्त-
 ज्ञात्या (ति-आख्या >) ख्य^२-
 -ख्येभ्यः पा ६, २, १३३.
 आचार्य-वचन- -नात् जैगृ १,
 १६ : ५.
 आचार्य-वचस्- -चः निस् ३, १२ :
 १४, ५, ५ : २८; बौध १, २, ५७.
 आचार्य-वत् आधौ ८, १४, २०;
 आपध १, ७, २७; ३०; १४, ६;
 विध ३२, १; हिध १, २, ८४;
 ८७; ४, ३९.
 आचार्य-शासन- -नम् अप ४६,
 ८, ४; माशि १४, ८.
 आचार्य-शास्त्रा(स्त्र-अ) परिलोप-
 हेतु^२- -तवः ऋप्रा १, ६४.
 आचार्य-श्वशुर-पितृव्य-मातुल-
 -लानाम् आगृ १, २४, ४.
 आचार्य-श्वशुर-पितृव्य-मातुल-स्ना-
 तका(क-अ) तिथि-राजन-
 -जभ्यः आमिगृ २, ६, ६ : ६.
 आचार्य-सकाश- -शे आगृ १, १८, ७.
 आचार्य-समय- -यः जंश्रौ २६; ९;
 निस् ८, ५ : २९; ९, ७ : १४.
 आचार्य-संसद्- -सदम् तैप्रा २४, ६.

a) बुज् प्र. (पा ५, १, १३२)। b) षस. > द्वस. । c) द्वस. > षस. > मलो. कस. । d) विप. ।
 बस. । e) द्वस. > षस. । f) षस. उप. =शरीर- (तु. पाका.) । g) द्वस. > बस. । h) षस. >
 षस. > षस. ।

आचार्य-संहिता- -तायाम् अप ५ :

१.

आचार्य-स्मृति- -तीनाम् निसू २,

१ : २१.

आचार्य-हित^a- -ते आपध १, २६,

११; हिध १, ७, २२.

आचार्या(र्य-आ)चार- -रात् पावा

१, १, १.

आचार्या(र्य-अ)धीन- -नः निसू ४,

३ : २; आपमं २, ६, १४; आगृ

१, २२, २; बौध २, ५, ४५; भागृ

१, ९ : ९; ३, ४ : १६; गोगृ

३, १, १३; २, ११; जैगृ १, १२ :

६८; द्रागृ २, ५, २५; आपध १,

२, १९; हिध १, १, ५२; -नम्

कौगृ २, १, २५; शागृ २, १, १५.

आचार्याधीन-त्व- -स्वम् गौध

३, ५.

आचार्याधीन-वृत्ति^b- -त्तिः वागृ

६, १७.

आचार्या(र्य-अ)न्तेवासिन्- -सिनोः

आमिगृ ३, ७, ४ : २; बौपि २,

३, ७; -सिनौ वाध १७, ८२.

आचार्या(र्य-अ)भाव- -त्रे आपध

२, १४, ३; हिध २, ३, १४.

आचार्या(र्य-आ)मुष्यायण- -णम्

आपधौ २४, १०, १७; बौधौ

२४, २८ : ५.

आचार्या(र्य-अ)र्थ- -र्थम् बौगृ ३,

३, ३३; -र्थस्य आपध १, ७, २१;

हिध १, २, ७८.

आचार्या(र्य-अ)सन्दी- -न्दी बौधौ

१७, ४३ : ८; आपमं २, ४,

१२; ९, ७; आमिगृ १, १, ३ :

५१; २, ६, ६ : ८; बौगृ १, २,

१८; २, ५, ३८; भागृ २, २३ :

५; हिगृ १, ६, ९; १२, १७.

आचार्यो(र्य-उ)पदेश- -शः गौध

११, ३३.

आचार्यो(र्य-उ)पसर्जन^c- -नः पा ६,

२, ३६; -ने पावा ६, २, ३६.

आचार्यो(र्य-उ)पाध्याय-त्पुत्र-

-त्रेषु बौध १, ५, ११४.

आचार्यो(र्य-उ)पासन- -नात् माशि

१६, १४.

आ/चि(चयने), आचिनोति काधौ

१, ३, १५; आपध १, १, १४;

हिध १, १, १३; या १, ४.

आ-काय- पा ३, ३, ४१.

आ-चय- (>आचय-क- पा.)

पाग ५, २, ६४.

आ-चायम् बौधौ १५, १४ : २;

१९ : ४?°.

आ-चित्त^d- -तम् वाधुधौ ४, १०८ :

२; -तानाम् सु २०, २.

आचित-मात्र- -त्रः या ५, २६.

आचित-शत- -तम् द्रागृ ४,

२, ४.

आचितशत-काम- -मः गोगृ

४, ६, १२.

आचित-सहस्र->°स्त्र-काम-

-मः गोगृ ४, ९, ११; द्रागृ ४, ३,

१५.

आचिति(क>)की-, °ती(न>)

ना- पा ५, १, ५३.

आ-चिख्यासत्-, आ-चिख्यासा-

आ/ख्या द्र.

आ/चित् > आ-चित्- -चिते

बौधौ १०, २३ : १५; वैधौ

१८, १४ : ३२.

आचिते मनस्ते भुवो विवस्ते°

आपधौ १४, १७, ३; हिधौ १५,

५, ३.

आ/चृत्, आचृतति कौसू १६, २९;

आ/चृत्तु कौसू ५८, ११;

अत्र ५, २८.

आ/चृ L°समात्तौ > आ-चीर्ण- -र्णे

शोध ३९१.

आचोपच- आच- द्र.

आ/च्छद्, आच्छादयते माधौ २,

१, १, ३१; ३४; २, २२; आच्छा-

दयति काधौ ८, ६, ३५; माधौ

२, ८, १४; वैगृ ५, २ : ४; कौसू

४१, १६; ५४, १; ७६, ४; ७९,

१३; २६; आच्छादयन्ति गोगृ

२, १०, ६; आच्छादयताम्, आ-

च्छादयन्ताम् शागृ ४, १५, १०^b;

आच्छादयति कौगृ ३, ११, ३२;

पागृ २, ६, २०; ७, १७; आच्छा-

दयेत् शागृ ४, १२, ३२; वैगृ ३,

२३ : १२; गोगृ ३, २, ४०; कप्र

३, ८, १५; वैध ३, ५, ५.

आच्छादयताम्, आच्छादयन्ताम्

कौगृ ४, २, ३^b.

आ-च्छन्न- -न्नः कौगृ १, २१, १९;

-न्नान् उनिसू ८ : ३७.

आ-च्छादक- -कम् विध ८६, ८.

आ-च्छादन^b- -नम् माधौ २, १, २,

३१; वैगृ; -नात् काधौ ८, ३,

१२; -ने पा ३, ३, ५४; ५, ४,

६; मीसू १०, ४, १२.

आच्छादन-विशेष- -वैः आमिगृ

२, ४, ६ : ३८.

आ-च्छादयत्- -यन् हिधौ १, ८, ४.

आ-च्छादयित्वा अप ७०^c, ९, १;

a) पस. उप. <√हि। b) विप.। बस.। c) अचा° इति पाठः? यनि. शोधः। d) =परिमाण-

विशेष- [शाकट-भार-]। e) वैप १ द्र.। f) वैत. MW. <आ/चर् इति। g) सपा. °द्वय° <> °च° इति

पाठे.। h) भाप., नाप.।

वैप ५, १५ : १५.
 आ-च्छादित- -तान् अप ५, २, ३;
 २१, ६, ५; -तौ अशां १३, ५.
 आ-च्छाद्य भाश्रौ १०, २, ७; माश्रौ;
 वाश्रौ १, ४, १, ५^३.
 †आ-च्छद्^३- -च्छदि माश्रौ १, ५,
 ३, १४; वाश्रौ १, ४, ३, १.
 आ-च्छादक- प्रसृ. आ/च्छद् द.
 आ/च्छिद्, आच्छिनन्ति आपश्रौ १,
 १, १०; ११; ३, १४; बौश्रौ; हिश्रौ
 २, ७, ५^{१०}; आच्छिन्दन्ति बौश्रौ
 १६, ३० : ७; आच्छिनमि वैश्रौ
 १२, ३: ८^१; आ(आ-अ)च्छिन्दन्
 आपश्रौ ५, २, ४^१; आच्छिन्धात्
 आपश्रौ २२, १३, २; बौश्रौ २०,
 १ : ५९; आच्छिन्दुः शंघ २७९.
 आ-च्छिद्य काश्रौ ७, ८, २५; वैश्रौ.
 आ-च्छिन्दत्- -न्दन् वैश्रौ ३, ४ : ७.
 आ-च्छिन्न- > °अ-द (शा) > श^१-
 -शेन वाग् १३, १.
 †आ-च्छेत्- -त्ता आपश्रौ १, ३, १४;
 ५, ५; बौश्रौ १, २ : ११; माश्रौ
 १, ३, १२; ५, १; माश्रौ १, १,
 १, ३६; वाश्रौ १, २, १, १८;
 वैश्रौ ३, ४ : ७; हिश्रौ १, २,
 ३४; २, ७, ५.
 आ-च्छेदन^०- -नानि बौश्रौ १, २ :
 ११; -ने बौश्रौ २०, १ : ५८;
 -नेषु बौश्रौ २०, २ : २७.
 आच्छेदनी^१- -नी आपश्रौ १,
 ५, ५; माश्रौ १, ५, १.
 आच्छिद्रिकी- १अ-च्छिद्र- द.
 आ/च्छृद्, आच्छृणोति आपश्रौ

१५, ४, १०; १६, ६, १; भाश्रौ;
 †आच्छृणोति आपश्रौ १५, ४,
 १०; बौश्रौ २, ४: १६^२; १७; माश्रौ
 ११, ४, ११; वैश्रौ १३, ६ : ४;
 हिश्रौ २४, १, २२; †आच्छृन्दन्तु
 आपश्रौ १६, ६, १; बौश्रौ १०, ८:
 १; २; माश्रौ ६, १, २, २२; वाश्रौ
 २, १, १, ४८; हिश्रौ ११, १, ६६.
 आ-च्छृणोण, णाम्- -णाम् बौश्रौ २, ४:
 १९; वैश्रौ १३, ६ : ५; -णाम्
 बौश्रौ १०, ८: ३; वैश्रौ १८, २: ६.
 आ-च्छृद्य बौश्रौ २, ४ : २६; १७ :
 १३; १०, ८ : ९; १३ : १४.
 †आ(आ-अ)च्छे(च्छ/इ), आच्छैति
 बौश्रौ १, १: ८^६; आच्छेयात् बौश्रौ
 २०, १ : ५५; २४, २३ : ३.
 आच्छा(च्छ-अ)यन- -ने बौश्रौ २०,
 १ : ५४.
 आ/च्छो, आच्छयति काश्रौ २०, ७,
 ६^१; आपश्रौ ७, १८, १२; १४;
 २, १९, ३; २०, १८, ९; बौश्रौ
 १५, ३० : २२^१; माश्रौ ७, १४,
 ९; वाधूश्रौ ३, ९४ : ३; वाश्रौ
 १, ६, ५, २०; हिश्रौ १४, ४, २०;
 आच्छयतात् शांश्रौ ५, १७, ४^१.
 आच्छौ वाधूश्रौ ३, ९४ : १९.
 आच्छास्यसि वाधूश्रौ ३, ९४ :
 १७.
 आ-च्छान- > °ना(न-अ)र्थे- -र्थम्
 भाश्रौ ७, १२, १८^४.
 आ-च्छाय बौश्रौ ४, ६ : ६१.
 आच्य आ(आ/अ)च्, ष्च् द.
 आ/च्यु, आच्यावयति आपश्रौ १३,

९, १५; हिश्रौ ९, ३, १७.
 †आ(अच्युच्यवोत्) आश्रौ ४,
 ७, ४; ५, १२, १५; शांश्रौ ५,
 १०, ८; बौश्रौ २, ९ : १५; १३,
 ११ : १२; †आ...अच्युच्यवुः
 आपश्रौ १२, ८, ३; १३, १, ११;
 बौश्रौ १४, १२ : १२; वैश्रौ १५,
 १० : ६; हिश्रौ ८, २, ४१;
 आमिष्ट २, ५, १० : २७; †आ
 (अच्युच्यवुः) आश्रौ २, १३, ७;
 आपश्रौ १३, १, ११^२; बौश्रौ १३,
 ३९ : ७; माश्रौ ५, २, ६, १७;
 वाश्रौ ३, २, ५, ६; हिश्रौ ९, १,
 १०^२; वृदे ६, ७८.
 आ-च्याव्य वैश्रौ १६, ११ : १०.
 आच्युतन्ति^१- (>°न्तीय-पा.) पाग
 ५, ३, ११६.
 आच्युतिक, का, की- २अच्युत- द.
 आच्युतदन्ति^१- (>°न्तीय- पा.)
 पाग ५, ३, ११६.
 आ(आ/अ)ञ्, आजति बौश्रौ १३, १०:
 ६; आजन्ति वैश्रौ १८, १६ :
 १२; †आ...अजासि बौश्रौ १५,
 २९ : ३५; तैप्रा १६, १८;
 आज > जा ऋप्रा ७, ३१^१;
 †आ...अज आपश्रौ २०, १६,
 १४; वाश्रौ ३, ४, ३, ४०; हिश्रौ
 १४, ३, ३९; आजत काश्रौ २५,
 ६, ९^१; †आ...अजानि^१ काश्रौ
 २०, ६, १४; बौश्रौ १५, २९ :
 ३५; वाश्रौ ३, ४, ४, १४; आ...
 अजेत या १०, ४२^१; †आजेत्
 आपश्रौ १९, १९, ३; बौश्रौ १३,

a) सप्र. आच्छाद्य <> परिधाय इति पाभे.। b) वैप १, ६३१ a द्र.। c) पाठः? सप्र. आपश्रौ १, ७, ३
 आहरति इति; वैश्रौ ३, ४ : १८ संभरति इति च। d) विप.। बस.। e) भावादपर्थे ल्युट् प्र.। f) = ऋग्-विशेष-। तु. तैप्रा
 ३, ७, ४, ९। g) सपा. भाश्रौ १, २, ७; माश्रौ १, १, १, १२ अच्छैति इति पाभे.। h) आच्छया^० इति पाठः? यनि. शोषः।
 i) आयुधजीविसंघ-विशेष-?। व्यु. ?। अच्युतन्त- इति पागम., अच्युतन्ति- इति च पाका.। j) अच्युतदन्त- इति पागम.,
 अच्युतदन्ति इति च पाका.। k) पाभे. वैप १, ६३२ a द्र.। l) विशेषः वैप १, ६३२ b द्र.।

१० : ५; २३, २ : ७.

आ(आ/अ)जू, ऊजू, ऋआज्यस्व आश्रौ
३, १४, १३; आपश्रौ ९, १६,
११; माश्रौ ९, १९, ८; हिश्रौ
१५, ४, ४९.

आङ्क्ते आपश्रौ १०, ७, १; बौश्रौ
२, ८ : १२××; भाश्रौ; आनक्ति
कौसू ५४, ६; आङ्क्ते आपश्रौ ८,
११, १३××; बौश्रौ; आ... अङ्क्ते

आपश्रौ २३, ७, ८; हिश्रौ १८, ३,
३; ऋआजे बौश्रौ १७, ४२ : ५:
आपमं २, ८, ११; हिश्रु १, ११,
५; आङ्क्ताम् शांगृ ४, १५, ११†;

ऋआङ्क्ताम् आपश्रौ १, ९, १७‡;
बौश्रौ ३, ११ : ५; ६‡; कौश्रु ४,
२, ३‡; शांगृ ४, १५, ११;

ऋआङ्क्ताम् कौश्रु ४, २, ३;
ऋआङ्क्ते आपश्रौ १, ९, १५‡;
भाश्रौ १, ९, ७‡; वाश्रौ १, २,
३, २६‡; हिश्रौ २, ७, ४५‡;

आमिश्रु ३, १, ३ : १२‡; वैश्रु ४,
६ : ५‡; ६‡; हिश्रु २, १२, ६‡;
जैश्रु १, २२ : २४; २, २ : १६‡;

आङ्गीत आपश्रौ १०, ७, २;
बौश्रौ २१, ८ : १२†; २४, २१,
१४; २८, ८ : १०; हिश्रौ ६, ८,
८; १७, १, ५३; ३, ३५;

आङ्गीरन् आश्रौ ११, ६, ३; लाश्रौ
१०, ४, ११; हिपि ११ : १३.
आङ्गीयत आश्रु ३, ८, ९.

आ(आ-अ)क्, क्ता- -क्तः आपश्रौ
१५, २१, ८; भाश्रौ ११, २२, १०;
-क्ते बौश्रौ २०, २७ : १२;
-क्तेन माश्रौ १, ८, ६, २.

ऋआङ्क्ते-ख^d- -खम् आपश्रौ १५,
६, २; बौश्रौ ९, ६ : ४; भाश्रौ
११, ६, २; हिश्रौ २४, २,
८.

आङ्क्ते(क्त-अ)ङ्क्ते- -क्षः शाश्रौ
१२, २१, २; जैश्रु १, १२ : ४;
-क्षाः बौश्रौ १८, ४८ : २०.

आ(आ-अ)ज्य आश्रौ ५, १९, ६;
माश्रौ १, ७, ५, २६; वाश्रौ १, ७,
३, १७; आश्रु ४, ६, ११.

आ(आ-अ)ज्यमान- -नम् वैताश्रौ
१०, ५; -नाय माश्रौ १, ८, २,
१२.

आ(आ-अ)ङ्क्ते- -नः बौश्रौ १८,
४८ : २१‡; -नम् आपश्रौ
१, ८, २; ९, १५; १७; ८, १४, १६;
बौश्रौ २, १० : ३७××; भाश्रौ;

-नस्य आपश्रौ १, ९, १५‡; माश्रौ
२, १, १, ३८; शांगृ ४, १५, ११;
माश्रु १, ११, ८; अप ४६, ६, १;
-ने बौश्रौ २१, ८ : १०; -नेन

आपश्रौ १०, ७, १; २; बौश्रौ.
आङ्क्ते-कोश- -शम् शांगृ १,
१२, ४^h.

आङ्क्ते-गन्धि- -न्धिम् शांगृ ६,
२, ५†.

आङ्क्ते-देवता-> ष्व(त्य>)
त्या- -त्याः अश्रु १९, ४५.
आङ्क्ते-पिष्ट- -ष्टेन वैश्रौ १२,
७ : ७.

आङ्क्ते-प्रभृति- -ति भाश्रौ ७,
८, ७; ८, २०, ६; हिश्रौ ४, २,
५१; ९, ८, १४.

आङ्क्ते-मणि- -णिम् कौसू ५८,

८; अशां १९, ८.

आङ्क्ते(न-अङ्क्ते)क्ता- -क्ताः
वाश्रौ १, २, ३, २६.

आङ्क्ते(न-आ)दि^d- -दि
आपश्रौ ८, १६, १३.

आङ्क्ते(न-अ)न्त^d- -न्तम्
वैताश्रौ १०, १४; कौसू ६४, २८.

ऋआङ्क्ते(न-अ)भ्यङ्क्ते- -नम्
आमिश्रु ३, ११, ३ : ६; अश्रु ९,
६†; -नयोः बौश्रौ २१, ५; १७;
-ने काश्रौ २१, ४, २५; २४, ३,
११; आपश्रौ १, ९, १४; २२, ३,
१६; बौश्रौ; -नौ बौश्रौ १८,
४८ : १९^f.

ऋआङ्क्तेभ्यङ्क्ते, ना^l- -नः
आपश्रौ २३, ७, ७; -नाः
निसू १०, ३ : १; -नाभिः
निसू १०, ४ : १५; -नासु लाश्रौ
१०, ४, १०.

आङ्क्तेभ्यङ्क्ते-वर्जम् आश्रौ
११, ६, ६.

आङ्क्तेभ्यङ्क्ते(न-आ)दि-
-दि वैश्रौ ९, १० : ३.

आङ्क्तेभ्यङ्क्तेनीय, या^k- -यः
हिश्रौ १८, ३, ३; -याः आश्रौ
११, ६, ५; -ये काश्रौ २४, ३, ८.

आङ्क्ते(न-अ)भ्यङ्क्ते-कशि-
पू(पु-उ)पवर्हण- -णानि आश्रौ
२, ६, ११.

आङ्क्ते(न-अ)भ्यङ्क्ते-दशा-
निहवन^l- -नम् वाश्रौ १, ७, ४,
५३.

आङ्क्तेनीय- -याः माश्रौ ५, २,
१२, ११.

a) प्रपु १ पाठः †। आङ्क्ताम् इति शांगृ ४, १५, ११ पाठे. । b) पाठः †। आङ्क्ताम् इति शांगृ ४, १५, ११ पाठे. ।

c) पाठे. पृ ७५ h द्र. । d) विप. । बस. । e) वैप १ द्र. । f) =एकाह-विशेष-। अघिकरणे कृत. । g) पाठे.

पृ ७६ a द्र. । h) पाठे. पृ ७६ e द्र. । i) समाहारे द्रस. । j) =याग-विशेष-। मत्वर्थीयः अच् प्र. । k) =याग-

विशेष- प्रभृ. । तदस्यप्रयोजनमित्यर्थे छ>ईयः प्र. (पा ५, १, १११) ।

✓आञ्जन्य, आञ्जन्याम्^१ आश्रौ
 ८, ३, १९; वैताश्रौ ३२, २५.
 आ(आ-अ)ञ्जयित्वा वैगृ २, १५: ६.
१आज- १अज- द्र.
२आज- ३अज- द्र.
आजक- १अज- द्र.
आजगन्धि- अजगन्ध- द्र.
आजधेनु- २अजधेनु- द्र.
आ/जन्, आजायते आश्रौ ८, ३, २०^१;
 हिश्रौ ५, २, ६१^१; विध २८, ४७;
 ऋआ...जायते शाश्रौ १०, १५, ८;
 आपश्रौ ९, ६, ७; १४, १४, २^१^७;
 वौश्रौ; आजायन्ते शाश्रौ १६, २३,
 ६; १४; आपश्रौ २२, १८, १३;
 हिश्रौ १७, ७, ६; आ...जायन्ते
 शाश्रौ १०, १५, ८^१; ऋआ...
 जायताम् आपश्रौ ११, ६, ५××;
 वौश्रौ; ऋआ(जायताम्)काश्रौ
 २०, ४, ११; वाश्रौ ३, ४, १, ५०;
 २, ५; हिश्रौ १४, २, ३०; शुअ ३,
 १५; ऋआजायत शाश्रौ १०, १५,
 २; आपश्रौ; ऋआ...जायत
 आपश्रौ १४, १४, १२; हिश्रौ
 १०, ७, २३.
 ऋआ...जनयतु आपश्रौ १४, २८,
 ४^०; माश्रौ १, ६, ४, २१^०; वाश्रौ
 १, ५, ५, ७^०; वैश्रौ २१, १५ :
 १४^०; हिश्रौ १५, ७, १२^०;
 आपमं १, ११, ५^०; आश्रु १, ९,
 ८^०; जैगृ १, २१ : १०; ऋआ
 (जनयतु) कौगृ १, २, ३; शाश्रु १,
 ६, ६; कागृ ४७, १३; ऋअ २, १०,

८५; वृदे ७, १३७.
ऋआ-जान^d- नम् आपश्रौ १६, २९,
 २; हिश्रौ ११, ८, ४; -नेषु^० शाश्रौ
 ७, १०, ११; शुअ ३, २३५.
ऋआ-जायमान- -नः आश्रौ ३, १०,
 ६; आपश्रौ ६, २८, ११; वौश्रौ
 १४, १९ : ३८; माश्रौ १, ६, ३,
 ३; हिश्रौ ३, ८, १०.
?आजनित्र^f- त्रे णिस् ८, १० : ३.
आ/जप्, आजपति वौश्रौ १४, १३:
 ३६; १५, ७ : १२; १६, २६ :
 १३; भागृ १, ८ : ८; १७ : ११;
 २४ : २; आजपेत् आपश्रौ १९,
 १७, १; २२, १६, ७; हिश्रौ २२,
 १, १३; वागृ २, ४; ३, १०.
आजपथिक- १अज- द्र.
आजवस्तेय- अजवस्ति- द्र.
आजमार्य- अजमार- द्र.
आजमीढ, ल्ह- अजमीढ- द्र.
आ-जरण^h- णम् वौध १, ११, २७.
आ-जरस^h- सम् आमिगृ ३, ५, २ :
 ९; -सात् कौगृ ५, १, १४;
 -साय आपमं १, ११, ५; जैगृ १,
 २१ : १०.
आजवस्तेय- अजवस्ति- द्र.
आजवाह- °हक, आजश्रु- १अज- द्र.
आजञ्जिक- अजञ्ज- द्र.
आजाद्य- अजाद- द्र.
आजानिष्य- अजानिक- द्र.
आजानेय^l- यम् माश्रौ १, ५, २,
 २१; -यान् काश्रौ २२, २, २३.
आजायन- ३अज- द्र.

आजाविक- १अज- द्र.
आ/जि, ऋआ(अजयत्)द्राश्रौ ६, २,
 ११; लाश्रौ २, १०, ११;
 आजयेत् वैश्रौ १८, ७ : १०.
आ-जयन^l- नस्य या ९, २३.
आजि- ✓अज् द्र.
आजिग^k- गम् द्राश्रौ २, २, ४९;
 लाश्रौ १, ६, ४६.
आजिग-प्रमृति- -तीनाम् लाश्रौ ६,
 १०, ५.
आजिगमिषत्- आ/गच्छ् द्र.
आ-जिघृक्षत्- आ/गृह् द्र.
आ-जिज्ञासे(न्य>न्या- आ/ज्ञा द्र.
आजिनीय- २अजिन- द्र.
आजिनेय- १अजिन- द्र.
आजिपथ- ✓अज् द्र.
आजिरि- ३अजिर- द्र.
आजिरेय- २अजिर- द्र.
?आजिशर- आजिसृत्-✓अज् द्र.
आजी- १अज्- द्र.
आजीक^k- कम् जैश्रौ २५ : ५.
आजीकूल^l- (>लक- पा.)
 पाग ४, २, १२७.
आजीगर्ति- अजीगर्त- द्र.
आ/जीव्, आजीवन्ति आपध १,
 १८, १९; हिध १, ५, ८८.
आ/जु> आ-जवन^l- नस्य या ९,
 २३.
आ/जुष्, ऋआ... जुषन्ताम् आमिगृ
 १, १, ४ : ३८; हिगृ १, ८, ४.
ऋआ-जुहान^d- नः आपश्रौ १०, २०,
 १९; वौश्रौ ४, ११ : २६; माश्रौ ६,

a) पाठः ? न्यात् इति शोधः (तु. टि. वैप १ परि.) । b) जायते इति पाठः ? यनि. शोधः (तु. सप्र. तैत्रा २, २, ३, ५; C. च) । c) पाप्मे. वैप १, ६३३ f द्र. । d) वैप १ द्र. । e) वैप १, ६३३ j द्र. । f) अर्थः व्यु. च ? । g) अस. वा. क्रिवि. । h) वैप २, ३ खं. द्र. । i) =कुलीनाश्व- । व्यु. ? । <आज- (<✓अज्) + आनेय- (<आ/नी) इति, आ/ज्ञा इति वा अभा. । <आ-जानि- [<आ/जन् (तु. P.W. प्रमृ.)] इति मतम् । j) उप. अधिक्करणे व्युद् प्र. । k) =साम-विशेष- । व्यु. ? । l) =साम-विशेष- । व्यु. ? । तु. भाण्डा. । आजी^० इति पाका. पागम. ।

२,५,१२; वैश्रौ २०, ३१ : ९;
 आमिगृ २,७,२ : ३५; ३ : ६;
 ४ : १४; ३,१०,३ : १४; बौगृ
 ४, १०, २; हिगृ १, २६, २०;
 अत्र ५,१२; या ५,७; ८,८०.
भा/हा, आजज्ञे, आजज्ञुः बौश्रौ १८,
 ४६ : ६.
 आ...ज्ञपय शाश्रौ १५, २५, ११.
 आज्ञापयेत् नाशि १,८,९.
भा-जिज्ञासे (न्य>) न्या^१ - न्याः
 वैताश्रौ ३२, २३.
भा-ज्ञप्त-सः बौश्रौ १८, ४६ : १८.
भा-ज्ञा- ज्ञया विध ९९, ८; -ज्ञा सु
 १८, ६; गोगृ २, ७, १८; द्रागृ
 २, २, ३४.
भाज्ञा-संपादि(न>)नी- नी
 कप्र २, १०, ४.
भा-ज्ञात-तः सु १८, १; -तम्
 आपश्रौ ३, १२, १; वाश्रौ १, ३,
 ७, २०; हिश्रौ २, ६, ४; आमिगृ
 १, ५, ४ : १७.
भा-ज्ञाय बौश्रौ १८, ४७ : ६; वैगृ
 ५, २ : १; वृदे ५, ७५.
भा-ज्ञायिन्- यिनि पा ६, ३, ५.
!आज्ञाः^१ बौश्रौप्र १७ : ३.
आज्य आ(आ/अ)जू, ङ्जू द.
१आज्य- १अज- द.
२आज्य- २अज- द.
३आज्य^१, ज्या- पावा ३, १, १०९;
 -ज्यम् आश्रौ १, ९, ५ × ×; २,
 ५, १४^२; १^१; शाश्रौ; वाधूश्रौ ४,
 ६८ : २^१; वैताश्रौ ४, ३^१; या
 ८, ५^२; -तज्यस्य आश्रौ १, ५,
 १५; २१; २३; २४^२ × ×; शाश्रौ;

काश्रौ २५, १०, २५^१; द्राश्रौ १२,
 ४, १^१; लाश्रौ ४, १२, १^१; शांगृ
 ४, १८, ३^१; -ज्याः माश्रौ
 ५, १, ६, ७^१; -ज्यात् शाश्रौ ८,
 १४, २; १६, १४, १; काश्रौ;
 -ज्यानाम् शाश्रौ १२, ९, २; १५,
 ६, ५; आपश्रौ; -ज्यानि आश्रौ
 १०, २, १७; शाश्रौ; -ज्याभ्याम्
 बौश्रौ ५, ५ : ३२; ३५; -ज्ये
 आश्रौ ३, १३, १८; शाश्रौ २, ७,
 ११; ७, ५, २० × ×; काश्रौ;
 काश्रौसं २७ : ८^१; -ज्येन
 आश्रौ १, १०, ४ × ×; शाश्रौ;
 कौगृ ४, ४, ९^१; -ज्येभ्यः
 माश्रौ २, २, १, १०; निसू ४,
 १० : २; -ज्येषु बौश्रौ ३, २४ :
 ११; माश्रौ; -ज्यैः आपश्रौ १२,
 २८, ८; बौश्रौ ६, ३० : २२;
 २९; २५, १२ : ७; १५ : २०;
 माश्रौ २, २, ४, ३१.
आज्य-कुम्भ- न्भे बौश्रौ १८,
 २० : २३; हिपि १० : ९.
आज्य-गान- नम् लाश्रौ ७, १३,
 १०; १२.
आज्य-ग्रह- हम् आपश्रौ १२, ७,
 ९; काश्रौ १९, ४, २५; बौश्रौ
 १४, २२ : २; ३; हिश्रौ ८, २,
 ३; -हाः बौश्रौ २४, ३ : ४;
 माश्रौ ४, ७, ६; -हाणाम् बौश्रौ
 ३, १६ : ९; २०, १० : २९;
 २३ : २९; २१, ४ : १९; १३ :
 १२; -हान् द्राश्रौ ४, ५, ७;
 वाश्रौ १, १, २, २२; जैश्रौ ८ :
 ४; -हे वैश्रौ ९, २ : १; १५, १ :

३; -हेभ्यः माश्रौ १, ७, १, २९;
 ३, ५०; ६, १५; ८, १, २७; २,
 १, ५, ११; २, १, २४; ४, १७;
 ३, १, ७; ५, २, ४, १५; वाश्रौ १,
 ६, २, १३.
आज्य-ग्रहण- गम् काश्रौ २, ७, ९;
 ६, २, ६; वैश्रौ १४, १४ : ५,
 -णात् हिश्रौ ५, ३, १४; ४, २८;
 ७, ४, १३; ८, ६; ९, ५, ९; १२,
 ५, २१; -णे काश्रौ ५, ८, २५;
 वैश्रौ ८, ५ : ३; हिश्रौ १, १, ४०.
आज्यग्रहण-काल- ले आपश्रौ
 ७, ९, १; ८, १०, ४; १४, २ × ×;
 वैश्रौ.
आज्य-चरु- रुभ्याम् वैगृ २, १२ :
 ५; ६, २० : ४; -रु वैगृ ४,
 ७ : २.
आज्य-तन्त्र- न्त्रेण गौपि १, १,
 २८; अप १४, १, ९.
आज्य-दधि-स्थाली^१- ल्याः वैश्रौ
 १३, ५ : ४; -ल्यौ वैश्रौ १३,
 ६ : ६.
आज्य-दोह^१- हम् द्राश्रौ २, १, १२;
 लाश्रौ १, ५, ९; -हयोः भाश्रौ २,
 १७, ५; -हानाम् लाश्रौ ९, ७, १३;
 निसू ८, ५ : ३३; -हानि निसू ८,
 ५ : ३१; गौपि १, १, ६; वाध २८,
 १५; शोध १०५; विध ५६, २७.
आज्य-धर्म- र्मेः वैश्रौ ८, ५ : २;
 मीसू ८, १, ३५; -र्माः काश्रौ
 २३, २, १५; २६, ४, ८; हिश्रौ
 ४, २, ३२.
आज्य-धा(न>)नी^१- नीम् कौसू
 २, ३०; अप ३०^१, २, ४; -न्याम्

a) =ऋग्-विशेष-। केन्यः प्र. (पा ३, ४, १४)। b) =ऋषिविशेष-। व्यु. ?। c) वैप १, परि. च द.।

d) पाभे. वैप १, ६३४ j द.। e) आज्यम् इति पाठः? यनि. शोधः। f) सपा. आज्यस्य <> आज्येन इति पाभे.। g) =ऋग्-विशेष-। h) मदाज्ये इति पाठः? तद् आज्यम् इति शोधः। i) द्रस. > षस.। j) वैप २, ३ खं द.। k) वैप १ द.।

कौस् ६, ९.
 आज्य-ना(सा >)स^a- -सः विध
 १, ४.
 आज्य-निर्वपण- -णम् काश्रौ ५,
 ४, २२; -णात् हिश्रौ ४, २, ३१.
 †आज्य-प^b- -पाः आश्रौ १, ५, २, ४;
 ९, ५; शाश्रौ १, ७, ६; १४, १४; मीस्
 १०, ४, ५४; -पान् आश्रौ १, ३,
 २२; शाश्रौ १, ५, ४; हिश्रौ २१, २,
 १४; शंघ ११६ : २५; -पानाम्
 आश्रौ १, ६, ५, शाश्रौ १, ९, २;
 माश्रौ ५, १, ३, २७; -पेभ्यः
 आश्रौ २, १९, ९; ५, ३, १०;
 माश्रौ ५, २, ८, १४.
 आज्यपा (प-आ)दि^c- -दि माश्रौ
 ५, २, ८, १५.
 आज्यपा (प-अ)न्त^c- -न्तम्
 आश्रौ १, ६, ५.
 आज्य-पक- -काभ्याम् वैगृ ६, १९ :
 १३.
 आज्य-पशु-शामित्र- -त्रान् काश्रौ
 ६, ५, ३.
 आज्य-पयस- -यसोः वाश्रौ १, १,
 १, ३१.
 आज्य-पात्र- -त्रम् वैगृ १, १९ :
 १६; -त्राणि हिश्रौ ७, ४, ९.
 आज्य-पु(रा)र्णा- -र्णाम् कप्र ३,
 २, ९.
 आज्य-पृष्ठ- -ष्ठयोः वैताश्रौ ३५,
 २१; -ष्ठानि निस् ६, १० : ३;
 -ष्ठेषु निस् ७, ९ : ६; २६.
 आज्य-प्रउग- -गयोः शाश्रौ ७,
 ५, २१; -गे आश्रौ ७, ६, ७.
 आज्य-प्रकृति- -तयः जैगृ १, १ :
 १३.

आज्य-प्रतिपद्- -पदः^d दाश्रौ ८, १,
 २१^e; -पदौ^f लाश्रौ ४, ५, २०^e.
 आज्य-प्रथमा- -मायाम् लाश्रौ ७,
 १३, १२; -मासु लाश्रौ ७, १३,
 १०.
 आज्य-प्रधान-त्व^g- -त्वात् मीस्
 १०, ४, ५४; ५६.
 आज्य-प्ररेक- -कम् माश्रौ २, १, ३,
 २९.
 आज्य-प्रोक्ष^h- -क्षम् बौश्रौ १०,
 २७ : २; ५० : ५; ५१ : २२;
 -क्षेण बौश्रौ १०, २७ : ११;
 ५१ : २८; २२, ९ : २४.
 †आज्य-प्रोक्षण^h- -णम् वैश्रौ १९,
 ६ : ८५.
 †आज्य-प्रोक्ष(रा)णीⁱ- -णीः
 काश्रौ ५, ४, ७; ८, ६, ३२.
 आज्य-बहिष्पत्रमान- -नम् क्षुस् २,
 ३ : ३.
 आज्य-विन्दु- -न्दून् आपश्रौ ३, ९,
 ७; भाश्रौ ३, ८, १४; वैश्रौ ७,
 ९ : ९; हिश्रौ २, ५, १५; आमिगृ
 ३, ४, १ : २६; बौपि ३, ३, ६;
 वैगृ ५, ३ : २६; हिपि ५ : ११;
 गौपि १, २, ३१.
 आज्य-भक्ष^j- -क्षम् मीस् १०, २,
 १५^k.
 आज्य-भाग, गा^l- -गः शाश्रौ २, ५,
 १२; २२; काश्रौ ४, ११, १२;
 आपश्रौ २०, ७, १३; बौश्रौ;
 -गम् आपश्रौ २, १८, ७; माश्रौ
 १, ४, २, १; कौगृ १, ५, २०; शागृ;
 -गयोः आपश्रौ ६, ३१, १२; बौश्रौ;
 -गस्य आश्रौ १, ५, २९; आपश्रौ;
 -†गा आपश्रौ १९, १९, ६; बौश्रौ

१३, १५ : २; १६ : ५; ८; १०
 हिश्रौ २२, ३, ४; -गान् आपश्रौ
 १०, २१, ११; भाश्रौ १०, १४,
 १४; हिश्रौ ७, २, १०; -गानाम्
 आपश्रौ १३, २३, ४; वैश्रौ १६,
 २७ : ८; -गाभ्याम् आश्रौ २,
 १९, २७; काश्रौ; -गेन काश्रौ
 ७, ५, १३; -गौ आश्रौ १, ३,
 ८××; शाश्रौ.
 आज्यभाग-परिवप्य^l- -प्यौ कागृ
 ५१, १२.
 आज्यभाग-पर्यन्त- -न्तम् अप
 ६९^m, ३, ४.
 आज्यभाग-प्रतिप(त्क >)त्काⁿ-
 -त्का बौश्रौ ८, २१ : १७; २५,
 २६ : १४; -त्काः बौश्रौ २३,
 १४ : २३.
 आज्यभागप्रतिपत्के (त्क-इ)-
 डान्त^m- -न्तः बौश्रौ २५,
 २ : १७.
 आज्यभाग-प्रधान-स्विष्टकृत्-
 पत्नीसंयाज- -जेषु वैश्रौ ६, ५ :
 ७.
 आज्यभाग-प्रभृति- -ति शाश्रौ
 ३, १५, १३; ८, १२, १२;
 आपश्रौ १३, २४, १०; माश्रौ
 १, ४, २, १६; ५, १, ४, ४.
 आज्यभागप्रभृति-वाजिना-
 (न्त >)न्ता^m- -न्ता आश्रौ ६,
 १४, २०.
 आज्यभागप्रभृती (ति इ)डा-
 (न्त >)न्ता^m- -न्ता आश्रौ २,
 १८, ३; ९, ९, ७; काठश्रौ
 १६१; -न्ताम् काश्रौ १०, ९,
 १७.

a) विप. (यज्ञ-नराह-विष्णु-।) बस.। b) वैप १ द.। c) विप.। बस.। d) षस. (तु. भाष्यम्)। e) परस्परं
 पामे.। f) दस. (तु. भाष्यम्)। g) =प्रोक्षणप्रयोजनक- आज्य-। h) तृस.। i) दस. उप. =रअप्-। j) विप.
 (।विहिताज्यभक्ष-। वचन-)। बस.। k) °क्षस्य इति जीसं.। l) दस.। उप. =होम-विशेष। m) कस.।

भाज्यभाग-वत् काश्रौ ५, ६, १७;
मीसू १०, ७, ४; ८, १७.

भाज्यभाग-स्विष्टकृत्-कृतौ
माश्रौ ५, १, १, ७.

भाज्यभाग-हविः-स्विष्टकृत्-
कृताम् माश्रौ ५, १, २, ७; ५,
७३; ७, ३४; ४७.

भाज्यभागा (ग-अ) मि^१-मिः
मीसू १०, १, १६.

भाज्यभागा (ग-अ) दि^२-दीनि
वाश्रौ १, १, १, ५१.

भाज्यभागादी (दि-इ) डा
(न्त>)न्ता^३-न्ता वैताश्रौ ९,
३; २७, ५.

भाज्यभागा (ग-अ) न्त^४-न्तम्
शाश्रौ १, १४, २३; बौश्रौ २५,
२६; १२; वैताश्रौ ९, ८;
आमिगृ ३, १, १ : ७; आपगृ
११, ५; कागृ २५, ८; ३४, ४;
हिगृ २, १०, ५; कौसू ६, ३४^५;
अप १०, १, ६; ११, १, ४; १८^६,
१, २; ३९, १, ४; आपगृ १८,
६; २२, १; कागृ ३८, २; अप्राय
४, १; -न्ते अप ३७, ८, १; १२,
१; अशां ६, ७; -न्तेषु वाश्रौ १,
१, १, ८२.

भाज्यभागान्ता (न्त-आ) ज्य-
तन्त्र^७-न्त्रम् अप ६६, २, ५.

भाज्य-भाजन-नम् कौगृ २, ७, २७.

भाज्य-भोक्त्-क्तारम् कागृ ४२:
१६.

भाज्य-मन्थ-न्थम् आपश्रौ २२,
२६, १; हिश्रौ २३, ४, १७.

भाज्य-मिश्र^८-श्रम् वैगृ ३, १३:
९; -आणाम् कौसू ७८, १६;
-आन् कौसू १९, ३०; २४, २;

-श्रेण आपश्रौ ११, ६, ४; २२,
२८, ९; हिश्रौ २३, ४, ४९; वैगृ
६, १९ : ९; -श्रैः वैगृ ५, १० :
४; हिगृ १, १५, ५; १७, ४.

भाज्य-लिस, सा^९-साभ्याम् आपश्रौ
२, ७, २; -से मागृ १, ३, ४;
गोगृ ३, ३, ३३; द्रागृ २, ५, ३६.

भाज्य-लेप-पान् आपश्रौ ३, ८,
१; हिश्रौ २, ४, ४४; -पे माश्रौ
१, ३, ३, ५; १९; -पेन शाश्रौ
७, ५, १०; कौगृ १, १०, ६;
१३, २; शागृ १, १६, ५; २१, ३.

भाज्यलेपा (प-आ) दि-दि
काश्रौसं ४ : ७.

भाज्य-वज्र^{१०}-ज्रेण वाधूश्रौ ३, ८४:
४.

भाज्य-वत् आमिगृ २, ७, ९ : ४;
भागृ ३, १८ : ६; मीसू ४, २,
१४.

भाज्य-वत्-वन्तम् काश्रौ २६,
३, ४.

भाज्यवती-तीभ्याम् बौश्रौ
२०, १० : २६; २५, ११ : १५;
२७; १४ : १९; १५ : १७;
माश्रौ २, ६, १३.

भाज्य-वर्जम् आश्रौ ३, ४, १३.

भाज्य-विकार-रः आपश्रौ १९,
२१, १५; हिश्रौ २२, ४, ६^१.

भाज्य-व्रत^{११}-तः बौश्रौ १८, ३२ :
१०; ३३ : ४.

भाज्य-शब्द^{१२}-ब्देन वाश्रौ १, १,
१, १९.

भाज्य-शास्त्र^{१३}-स्त्रात् वैताश्रौ २०,
१२.

भाज्य-शेष-षम् आश्रौ ६, ५, ३;
काश्रौ; -षस्य आपश्रौ ११, १७,

४; -षात् आपगृ ८, १०; -वे
माश्रौ १, ७, ४, ३४; आमिगृ;
-वेण काश्रौ २०, १, ७; वैश्रौ.

भाज्य-संयुक्त^{१४}-क्तम् वैगृ ३, १३:
८; कप ३, ७, १२.

भाज्य-संयुत, ता^{१५}-तम् बौश्रौ १०,
१२ : ७; १३ : २१; वैश्रौ १८,
६ : ८; -ताः वैश्रौ १९, ६ :
१२०.

भाज्य-संस्कार-रः कौगृ १, ४,
६; शागृ १, ८, २२.

भाज्य-संस्था^{१६}-स्था मीसू ९, ४,
५२.

भाज्य-संस्पर्श-शात् अप ८, १, ७.

भाज्य-सक्तु^{१७}-क्तुं कौसू १४, ८.

भाज्य-सक्त-धाना-लाज-जानाम्
काश्रौ २०, ४, ३१.

भाज्य-सादन-नम् वैश्रौ १४,
१७ : ५.

भाज्यमादना (न-अ) न्त^{१८}-न्तम्
वैश्रौ १०, ७ : ९; १५, १ : ४.

भाज्य-सानाय्य-र्ययोः आपश्रौ
२, १९, १; वैश्रौ ६, ९ : ३; हिश्रौ
२, २, १४.

भाज्य-सूक्त^{१९}-क्तम् षुदे ५, ११.

भाज्य-सोम-वर्जम् काश्रौ ८, ७, १०.

भाज्य-स्तोक-क्तम् बौश्रौ २, ९ : ६.

भाज्य-स्तोत्रिय^{२०}-यः वैताश्रौ ३१,
१६; ३३, २३; ३४, ६; -याः
वैताश्रौ ३१, २१; ३२, १; ३३,
२; १४.

भाज्यस्तोत्रिया (य-अ) नुरूप-
पौ वैताश्रौ ३७, ५.

भाज्य-स्थाली-ली काश्रौ ८, २,
२८; वाधूश्रौ; -लीसू काश्रौ ३,
६, २१; ५, १, २५; आपश्रौ;

a) कस. उप. =अग्नि-याग-।

b) विप.। बस.।

c) कस.।

d) तृस.।

e) तृस. (पा २,

१, ३४)। f) षस. पूष. =शन्न-विशेष-।

-ल्या वाश्रौ १, १, १, ३६; ३, ७, २१; वैश्रौ; -ल्याः शाश्रौ १७, ११, ४; आपश्रौ; -ल्याम् आपश्रौ ३, १४, ७; बौश्रौ; -ल्यौ आपश्रौ ७, ८, ३; भाश्रौ. भाज्यस्थाली-दोष- -षे काश्रौ २५, ५, २४.
 भाज्य-लुक्^१ -वम् बौश्रौ १०, १३ : ९; २३, २ : २४; २५; वैश्रौ १८, ७ : २; -वाः बौश्रौ २०, २९ : १; -वौ आपश्रौ १५, १५, १; भाश्रौ ११, १५, ४; हिश्रौ २४, ६, १२; आम्रिष्ट ३, ४, २ : ६; ५, ७ : ३; बौपि १, ५ : १६; ३, ३, १२; हिपि ६ : १; वैगृ ५, ४ : २६.
 भाज्य-हविस्^२ -विः आपश्रौ २, १९, १२; आपश्रौ १९, १९, ६; हिश्रौ २२, ३, ४; -विभ्याम् हिश्रौ २, २, ३५; -विषा भाश्रौ ९, १८, १; हिश्रौ २, २, ३९; अप्राय २, १; -विषाम् आश्रौ ६, १४, ३; -विषि वौश्रौ २०, १३ : ३४; कौगृ १, ५, २७; -विषौ आपश्रौ २, १८, १.
 भाज्यहविष्-क्^३ -क्केण वैश्रौ ६, ९ : १; -क्कौ वैश्रौ ६, ७ : ८.
 भाज्य-होम- -मः अप ३३, ६, ११; गौध २३, २० : २७, ५; -मान् अप्राय ३, ४; -मेपु आगृ १, ३, ४.
 भाज्यहोमा (म-अ)न्त- -न्ते वैगृ ४, ९ : ६.
 भाज्या(ज्य-अ)क्त- -क्तानि वैगृ ५, ३ : २५; -क्ताभ्याम् वैगृ ५, ५ : २६.

भाज्या(ज्य-आ)दि^४ -दिपु निस ८, ५, २७.
 भाज्या (ज्य-आद्य)द्या- -द्यया आश्रौ ८, ३, २९; -द्याम् आश्रौ ५, ९, २०; ८, ३, ०.
 भाज्या (ज्य-अ) धिभ्रयण-> ँण- लुक्संमार्जने (न-उ) द्वासना (न-अ) वेक्षण^५ -णानि काश्रौ ८, ६, २९.
 भाज्या(ज्य-अ)भिमन्त्रण- -णम् वैश्रौ २, २ : ४.
 भाज्या (ज्य-अ)भिपेचन- -नम् वैगृ ५, २ : २.
 भाज्या(ज्य-अ)र्थ- -र्थम् काश्रौ ५, ६, ११; -र्थान् आपश्रौ ८, ११, २; वाश्रौ १, १, १, ३३; हिश्रौ १, ८, १९; -र्थे बौश्रौ २८, १३ : ३; ४; ८.
 भाज्या(ज्य-अ)र्थ- -र्थम् वैश्रौ १४, १४ : १४.
 भाज्या(ज्य-अ)वकाश- -शम् बौश्रौ २४, ३६ : २; -शस्य वाधूश्रौ २, १४ : १.
 भाज्या (ज्य-अ)वदान-होम- -मम् वैताश्रौ २४, १३.
 भाज्या (ज्य-अ)वेक्षण- -णम् भाश्रौ ४, ७, ६; वाश्रौ १, १, २, २१; -णात्, -णे बौश्रौ १३, ३१ : ९.
 भाज्या(ज्य-आ)सादन- -नात् काश्रौ ६, २, ५; ९, १, ५; १०, ९, १३.
 भाज्या(ज्य-आ)हुति, ती- -तयः अप ६७, २, ३; ६, ६; गौध २६, १४; -तिः शाश्रौ ४, २०, ६; -तिभिः गौगृ ३, ८, १०; -तिम् आश्रौ ३, १०, ४; १३, १८; शाश्रौ; -तिषु

कौगृ १, ३, १२; ५, २४; शागृ; -ती वाश्रौ १, ३, ७, १५; पागृ; -तीः शाश्रौ ४, १७, १३; आश्रौ; -तीनाम् माश्रौ १, ३, १, १६; कौगृ १, ६, २; शागृ १, १०, २; कौसू ३, १८; -तीषु कप २, ५, १०.
 भाज्याहुति-धर्म- -र्मेण कौगृ २, ६, २; शागृ २, ८, १.
 भाज्याहुत्य (ति-अ)ष्टक- -कम् कप ३, १, १४.
 भाज्ये (ज्य-इ)डा^६ -डाम् आपश्रौ ४, १३, ४; भाश्रौ ४, १९, ६; वैश्रौ ७, १० : १; २; १२, ५ : ४; हिश्रौ ६, ४, २; ७, १, २२; २१, २, ६९.
 भाज्येडा (डा-अ)न्त^७ -न्तम् आपश्रौ ३, १४, ६.
 ?भाज्येयः^८ शाश्रौ ९, २५, १.
 भाज्यो(ज्य-उ)क्ति- -क्तौ वैश्रौ ११, ११ : ९.
 भाज्यो (ज्य-ऊ)त^९ -तान् कौसू २१, २५.
 भाज्य (जि-अ)न्त- ✓अज् द्र.
 भाज्य-पात्र- प्रसृ. ३भाज्य- द्र.
 भाज्यमान- आ(आ✓अ)ज्, ज्ज् द्र.
 ✓आज् ल् पाधा. भ्वा. पर. आयाभि.
 आज्ञति, नि, लि] क्य- अज्ञति L, नि, लि] क- द्र.
 आज्ञन- प्रसृ., आज्ञन्य- (आ-✓अ) ज्, ज्ज् द्र.
 आजीकूल- (>°लक) आजीकूल- द्र.
 आजीगवि^{१०} -विः बौश्रौ ७, ४ : २४; ११, २ : २९; १४, १५ : २१; २०, २ : १३; १३ : ६; १७ : २१; २५; २० : ३६; २१ : ३१; २२ : ५; २१, १ : १०;

a) मलो. कस. । b) विप. । बस. । c) द्रस. पूष. षस. । d) पाठः ? भाज्ये यः इति C. शोधः ? । e) तृस. उप. <✓अव् [उपसेचने] । f) =आचार्य-विशेष- । व्यु. ? ।

१९ : २३; २६ : १५; २२,
१४ : ११; १७ : १०; २३, १ :
१४; ५ : १५; १९ : ४.
आद्^१ निस् ३, ११ : २.
आटरुष- पाउभो २, ३, १६७.
१आटि^२- -व्याः पागृ १, १९, ११.
२आटि- आघाटि- द्र.
आटस्थलक- अटस्थ(ल >)ली- द्र.
१आटणार- अटणार- द्र.
२आटणार^३- -रः या १, १४.
आडा, ण्डारकि- अडा, ण्डारक- द्र.
आडू- पाठ १, ८६.
आढ- आढक- टि. द्र.
आढक^४- पाग २, ४, ३१०; ४, १, ४१;
-कम् अप ३३, ३, ३; पावा १, ४,
२३; वेज्यो २४; -केन आमिगृ २,
४, १० : २२; -कैः अप ३३, ३, ३.
आढकी-पा ४, १, ४१.
आढका(क-आ)चित-पात्र- -त्रात्
पा ५, १, ५३.
आढका(क-आ)पूरित- -तम् आमिगृ
२, ३, ३ : ८.
आढका(क-अ)र्ध- -धेन आमिगृ २,
४, १० : २२.
आ(, आ)ढकिक, आ(, आ)ढकीन-
पा ५, १, ५३; ५४.
आढ्य^५- पाग ५, १, १३३; -व्यः माश्रौ
५, १, १०, ५२; -व्यम् वाध १,
४५.
आढ्यक- पा ५, १, १३३.
आढ्यं √ कृ > °करण- पा ३, २,

५६.
आढ्य-जना(न-आ)कुल- -लम् बौध
२, ३, ५१.
आढ्य-पदि- पा., पाग ५, ४, १२८.
आढ्यं √ भू > °भविष्णु-, °भालुक-
पा ३, २, ५७.
आढ्यालु^६- -लुः या १२, १४.
√ आण^७ > आण^८- > आण्ड-
(ण-ड)^९- -ण्डानि कौसू ११६, ७;
-ण्डौ आमिगृ २, १, १ : ९; वैगृ ३,
११ : ४†; हिगृ २, २, ३†; या
६, ३२.
आण्डी^{१०}- -ण्ड्यौ अप्रा
३, ४, १†.
आण्डी-वल^{११}- -लः
वाश्रुश्रौ ४, ६५ : ५; १०९ : ६.
आण्ड-ज^{१२}- -जाः नाशि १,
७, ७†; -जानाम् सु २, ६.
१आणव- √ अण् द्र.
२आणव-, °वक- ३अणु- द्र.
आणि- √ अण् द्र.
आणीवैय- अणीव- द्र.
आण्डायन- २अण्ड- द्र.
१आण्डीक^{१३}- > °का(क-आ) दि-
वत्- -वन्ति कौसू ६६, १०†.
आण्डीर^{१४}- पा ५, २, १११.
आण्डीवत् (, त)^{१५}- (> आण्डीवता-
यनि^{१६}- पा.) पाग ४, २, ८०.
†आत्^{१७} आश्रौ ३, ८, १; ७, २, ३; शाश्रौ;
या ४, ११; ७, २४ ङी; १०,
२६; १२, ९.

?आतः^{१८} वीश्रौ २५, २० : २४; कौसू
८१, ४४; ८५, २६; ८६, १७;
अभ १८, ४†; अपं ३ : १७; २४.
आ√तञ्च्, आतनक्ति काश्रौ ४, २,
३३; आपश्रौ; †आतनचिम^{१९}
आपश्रौ १, १३, १४; वीश्रौ १, ३;
३१; भाश्रौ १, १४, ४; माश्रौ १,
१, ३, ३४; ७, १, १२; वाश्रौ १, २,
२, ३२; वैश्रौ ३, ८ : ६; हिश्रौ १,
३, ५२†; आतञ्चयात् आपश्रौ १,
१४, २; वीश्रौ.
आ-तच्य वीश्रौ ६, ६; १३ × ×; माश्रौ.
आ-तञ्चन- -नम् काश्रौ ७, ८, ८†;
वैश्रौ ३, ८ : ५; -नाय वैश्रौ ३,
२ : २०; -ने वीश्रौ २०, ४ :
२९; -नेन आपश्रौ ६, १५, ६†;
-नेषु वीश्रौ २०, १ : ३७.
आतञ्चन-विकल्प- -ल्पाः
आपश्रौ १, १४, १.
आतञ्चना(न-अ) पिधान- -ने
आपश्रौ १, १४, ८.
आतञ्चना(न-अ)भ्यास- -सस्य
मीस् ६, ५, ४.
आतञ्चना (न-अ) र्ध- -र्धम्
आपश्रौ १, ११, १; १३, १२;
९, ४, १४; हिश्रौ ६, १, ३४; -र्थे
वीश्रौ २०, १ : ३८.
आ-तत- आ√तन् द्र.
आततायिन्^{२०}- -यिनः वाध ३, १६;
बौध १, १०, ११; विध ५, १९२;
-यिनम् वाध ३, १५; १७;

a) =मसङ्कशब्दानुकृति-। b) =जलचर-पक्षिन्-। व्यु. ?। ष्टी- इति केचिद् भाष्यकाराः। c) अर्थः व्यु. च ?
=अटनशील- इति स्क. दु.। d) =चतुःप्रस्थ-परिमाण-। व्यु. ? वैप ३ द्र.। e) आढ- इति पासि.। f) वैप ३ द्र.। g) =दरिद्र-।
तत्स्पृहार्थे < आढय- [धन-वत्-] इति दु.। (√ अर्थि [उपयाद्यायाम्] भवे) *अर्थ- > (तत्करोत्यर्थे) *अर्थ्यालु- > नैप्र.
यनि. =मिथुन- इति मतम्। h) वैप १ द्र.। i) पाभे. वैप १, ६३६। d.। j) मत्वर्थीयः बलच् प्र.। k) =पक्षिन्-।
उस.। l) अण्ड- इति लासं.। m) वैप १, ६३६० द्र.। n) °वत्यां (पृथिव्याम्) इति संस्कृतुः टि. शोधः ?। o) =युवन्-।
व्यु. ?। < आण्ड- (तु. पासि. PW.; वैतु. पाका. अण्डीर- < अण्ड- इति)। p) अर्थः व्यु. च ?। q) =देश-विशेष- ?।
r) पाठः (तु. ज्व.) ? इत्यन्तः इति संस्कृतुः शोधः (तु. सकर्षं प्रच्युति इति) ?। s) पाभे. वैप १, ६३७। d.।

१८; बौध १,१०,१२; विध ५,
१८९; हिध १,७,६४; -यिनाम्
विध ५,१८८.

भाततायि-वध^१- -धे विध ५,१९०;
सुधप ८४ : ६.

आ√तन्, भातनोति काश्रौ १५,
५, १७; बौश्रौ ६, २२ : १३;
१९; १०, १९ : ६; या १०,
३१; भातन्वते बौश्र ३,११,४५;
†भा(तन्वन्ति) ऋअ २, ९, ९९;
उनिस् ५ : ३२; भा...तनोषि
आश्रौ ६, १४, १८५; भातनुष्व
बौश्रौ १९, १० : ३३५.

†भाततान आश्रौ ३, १०, १६^b;
आपश्रौ ९, १०, १७^b; बौश्रौ २,
१३ : १० ××; १४, २५ : ४^b;
भाश्रौ ९, १४, ९^b; हिश्रौ १५,
३, २७^b; अप्राय ५, २^b; †भा-
...ततान आपश्रौ ९, ८, ६; बौश्रौ
१३, ४३ : १२; हिश्रौ १२, ४,
४; १५, २, ३५; या १०, ३१^b;
†भा(ततान) आपश्रौ २, १२, ५;
बौश्रौ १३, ८ : ५; २८, २ : ३६;
भाततन्थ माश्रौ ३, ४, १०^b.

भा...तायते भाश्रौ ३, १०, २५.
†भा-तत- -तः वाश्रौ १, ५, ४, ३०;
-तम् शाश्रौ १२, १८, १०; बौश्रौ
४, ४ : ३२; वाश्रौ १, ६, ३,
१९; आमिष्ट २, ४, ३ : ५.

†भा-तान^d- -०न काश्रौ ६, ६, १;
आपश्रौ ७, १८, २; काठश्रौ ३४;
बौश्रौ ४, ६ : ४२; भाश्रौ ७,
१३, ९; माश्रौ १, ८, ४, १; वाश्रौ
१, ६, ५, ११; वैश्रौ १०, १४ :

३; हिश्रौ ४, ४, ५; -नाः आश्रौ
७, १, ७^०; दाश्रौ १०, ४, ८;
लाश्रौ ३, १२, ७.

आ√तप्, भातपति हिश्रौ १४, ४, ३८५;
शांश्र १, ३, २; कौस् १३७, ३०५;
भातपत् आपश्रौ २१, १२, ३५;
वाधूश्रौ ४, ४७ : ३; ५; हिश्रौ
१६, ४, ३५५; आपमं १, ३, ४५;
भातपेत् आपश्रौ ३, १६, ४.

भा-तप^d- पाग ४, २, ९०; -पस्य
हिश्रौ ७, ८, ५०; -पे आपश्रौ
१८, ११, ५; हिश्रौ १३, ४, १७;
पाश्र २, ८, ५; -पेन वैश्रौ १३,
४ : ३.

भातप-त्र^d- -त्रम् अप ३, १, १७.

भातपत्रा(त्र-आ)दि- -दिम्

अप ३, २, १.
भातप-व(र्व्य>)र्व्या^१- -र्व्याः
काश्रौ १५, ४, ३४.

भातपा(प-आ)दि- -दीनि पाश्र
२, ८, ९.

भातपीय- पा ४, २, ९०.

भा-तपत्- -पतः आपश्रौ ११, २०,
७; बौश्रौ ६, ३२ : ६; १६, ३ :
६; -पति आपश्रौ १८, १३, १०;
बौश्रौ १२, ८ : १२; १९, १० :
३; वाधूश्रौ ३, १९ : ८; वाश्रौ
३, ३, २, १८; हिश्रौ १३, ५, १४.

भा-तस- > ष-काञ्चन-चया-
(य-अ)रुणता(ता-अ)वदात^b-
-तः अप २४, ५, ३.

भा-तप्य आमिष्ट ३, ५, ३ : ७.

आ√तम् > भा-तम्य हिपि १८ : १४;
जैश्र २, ८ : १२.

भातघ^१- (>भातवायन- पा.) पाग
४, १, ११०.

†आ(त>)ता^d- -ताः अप ४८, ९९;
निघ १, ६.

आताली^१(भाताली ✓कृ पा.) पाग
१, ४, ६१.

आति^१- पाउ ४, १३१; पावा ३, ३,
१०८.

आतिच्छन्दस्- अति-छन्दस्- द्र.

१आतिथेय- ✓अत् द्र.

२आतिथेय- २अतिथि- द्र.

१आतिथ्य- ✓अत् द्र.

२आतिथ्य- २अतिथि- द्र.

आतिमार्त्यव- अतिमृत्यु- द्र.

आतिरात्र्य- अतिरात्र- द्र.

आतिशायिक- अति✓शी द्र.

आतिश्वायन- अतिधन्- द्र.

आ-तिष्ठत्- आ✓स्था द्र.

आतिष्ठय- अति✓ष्टा द्र.

आतिश्वायन- अतिस्वन्- परि. द्र.

आतीषादीय^१- -यम् लाश्रौ ७, १, १;
निस् ८, १० : ३२; -ये लाश्रौ
७, ८, १३.

आ√तुद्, †आतुतोद आमिष्ट ३, ६,
३ : ८; ७, ४ : १५; बौपि १,
११ : ७.

१आतुर-(>२भा^०पा.)श्र ४६०m द्र.

३आतुर, रा^d- पाउश्र १, ४१^m; -२ः
अप २३, ८, १; विध ६४, ४; वैष
२, १४, ५; -रम् अप ६७, ६७, ५;
अप्रा ३, ४, १५; -रस्य आश्र १,
२३, २०; ३, ६, ३; आपध २,
११, ७; वैष २, १४, ६; हिध २,
४, २३; -रा सु ३, २; -रे वैष ३,

a) षस. । b) पामे. वैप २, ३ खं. तैत्र १, ४, ४, १० टि. द्र. । c) वनिषदाततम् इत्यस्य स्थाने वनिष-
दा-तम->-मम् इति ०. ? । d) वैप १ द्र. । e) नाप. । करणे कृत् (तु. भाष्यम्) । f) =छत्र- । उध.
उप. <✓श्रौ । g) विप. । उस. उप. ✓वृष्+कर्त्तरि ण्यत् प्र. (पा ३, १, ११३) । h) विप. । कस. > षस. > षस. > मलो.
कस. । i) =ऋषि-विशेष-। व्यु. ? । j) अर्थः व्यु. च ? । k) वैप १, ६३९. १ द्र. । l) वैप २, ३ खं. द्र. । m) <✓मम् इति ३ ।
वैप ४-अ-६४

४, १०; -रेण आपश्रौ ६, २, २१.
आतुर-व्यञ्जन^१- नानि आमिष्ट ३, ४, ४:१७; वौषि ३, ४, १६; आपध २, १५, ६; हिध २, ३, ३६.
आ-तृतीय^२- यम् द्राश्रौ ११, ३, ११; १५, २, १२; लाश्रौ ४, ३, १२; ५, १०, १२; ९, ८, १७; १९; निस् १०, १३ : १०; कौस् १७, १७.
आ/तृद्, आतृणत्ति वौश्रौ १६, २१ : २; २६, १७:१३; वाध २, १०१^३; हिध १, १, १८१^३; या २, ४१^३; १०, ४१; आतृन्घात् वौश्रौ २६, १७ : १३.
आ-तृष्ण- ण्णे वाश्रौ २, १, ६, २०.
†आ-तृदस^४ (:)काश्रौ २५, ५, ३०; आपमं १, ७, १; कागृ २७, २; पा ३, ४, १७.
आ/तृ, †आ(आ अ)तिरत् वैताश्रौ २२, १२; ३१, २५; निघ २, १९.
आत्कील- अत्कील-द्र.
आ-त्त- प्रष्ट. आ/दाद्र.
आत्मन्^५- पाठ ४, १५३; -स्मन् शाश्रौ १४, २८, ९××; काश्रौ; आपश्रौ १०, १३, १११^६; -स्मनः आश्रौ १, ११, ८××; शाश्रौ; या ७, ४; १४, १०; १४; पा ३, १,

८; ६, ४, १४१; पावा १, ३, ६७; ६, ३, ५; ४, १४१; -स्मना आश्रौ ५, ६, ११^७; १०, ५, १२; शाश्रौ; माश्रौ १, ६, ३, ३१^८; -स्मनि शाश्रौ १६, १६, १; काश्रौ; -स्मने शाश्रौ १८, १, ३; आपश्रौ १४, ४, १××; १४, २१, ७१^९; वौश्रौ; -स्मनोः वाधूश्रौ ४, ६४:४; -स्मा आश्रौ ३, १०, ६१^{१०}; शाश्रौ ६, ३, ८१; ८, १०, ११^{११}××; आपश्रौ ६, २८, १११^{११}; लाश्रौ ७, ६, १२^{१२}; आपमं २, ११, ३३१^{१२}; आगृ १, १५, ९१^{१३}; †पागृ १, १६, १८; १८, २; †आमिष्ट २, १, ३:७^{१४}; ३, ६, १:६^{१५}; ८, २:५२^{१५}; कागृ ३६, १११^{१६}; वौगृ २, १, ४१^{१६}; भागृ १, २५:३१^{१६}; मागृ १, ३, २१^{१६}; १८, ६१^{१६}; वागृ २, ५१^{१६}; हिगृ १, १७, ४१^{१६}; २, ३, २१^{१६}; जैगृ १, ८:५१^{१६}; अगृ ६, ३^{१६}××; वौध २, ६, ३२^{१६}; या ३, ४१^{१६}; १२; १५१^{१६}; ७, ४^{१६}; २३, ८, २२^{१६}; १०, २६; १२, १६१^{१६}; ३७; १४-१९; २१; २२; ३७; -स्मानम् आश्रौ १, ४, ८××^{१६}; शाश्रौ; आपश्रौ १४, २१, ७^{१६}; या १, १९; ३, ५; ५, ६१^{१६}; ७, १८××.

आत्म-क- -कम् आज्यो १०, १०.
आत्म-कर (ए) जी^{१७}- णीनाम् हिद्यु ६, ४९.
आत्म-कर्म-गुण^{१८}- णम् आज्यो ९, १.
आत्म-काम- > ०मेय^{१९} > ०मेयक^{२०}- पाग ४, २, ५३.
आत्म-कारण^{२१}- णात् विध ६७, ४३.
आत्म-कार्य^{२२}- र्थेषु हिध १, २, ११३^{२२}.
आत्म-कृत^{२३}- ण्तस्य आश्रौ ६, १२, ३; शाश्रौ ८, ९, १; आपश्रौ १३, १७, ९; माश्रौ २, ५, ४, ८; हिश्रौ ९, ४, ५७; जैश्रौ २०:७; वैताश्रौ २३, १२; आमिष्ट ३, १२, २:७; वौध ४, ३, ६; -तैः^{२४} वौध ३, ६, १; विध ४८, १.
आत्म-गत- -तान् अप ६८, ३, ११; -तानाम् वौश्रौ २७, ५:१.
आत्म-गति^{२५}- -तिम् या ३, १२; १०, २६; १२, ३७; ३८; १४, १२-१६; १८-२१; २३-२५; २७; २९.
आत्म-गी(त>)ता^{२६}- -ता ऋञ्ज २, ३, २६.
आत्म-गुण^{२७}- णाः गौध ८, २०; २२; २३.
आत्म-गोपन^{२८}- -नाय अञ्ज ६, ४.
आत्म-घातिन्- -तिनः वैध ३, ९, १; -ती वैगृ ५, ११:३.

a) पस. । b) अस. वा. क्वि. । c) सपा. आतृणत्ति <> आतृणोत्ति <> संज्ञा ३ आतृणोत्ति इति पाभे. । d) वैप १ द्र. । e) पाभे. वैप २, ३खं. जठरे गोब्रा १, २, ७ टि. द्र. । f) पाभे. वैप २, ३खं. आत्मा तैब्रा २, ५, ८, ८ टि. द्र. । g) पाभे. वैप १ स्मने टि. द्र. । h) पाभे. वैप १, ६४२ e द्र. । i) = अनुगान- । j) पाभे. वैप २, ३खं. आत्मा माश १४, ९, ४, २६ टि. द्र. । k) पाभे. वैप १, ६४२ b द्र. । l) पाभे. वैप १ मुनः मा ४, १५ टि. द्र. । m) आ त्वा इति पाठः ? यनि. श्लोचः (तु. ऋ९, ६, ८) । n) वैप २, ३खं. आत्मा तैब्रा ३, १२, ९, ८ टि. द्र. । o) पाभे. वैप १ स्मानम् टि. द्र. । p) विप. (इष्टका-). । q) विप. (ऽधुगोः] मत-). । बस. > दस. । r) अपत्यार्थे ढक् > एयः प्र. (पा ४, १, १२३) । s) = देश-विशेष- । t) सप्र. आत्मकार्येषु <> आत्मकार्येषु इति पाभे. । u) तृस. । v) विप. (ऋञ्-). । बस. ।

आत्म-चतुस्त्रिंशो(श-ऊ)न^a- -नेन
 आप्तु १, १०; कात् २, १३;
 बौशु २ : २५; हिशु १, १७.
 आत्म-ज- -जः या ३, ६.
 आत्म-जन्मन्^b- -न्मानः या ७, ४.
 आत्म-जिज्ञासा^c- -सया या १४, १;
 -सा या १४, ३६.
 आत्म-ज्योतिष^d- -षम् आज्यो
 १४, ११.
 आत्म-तुल्य- -स्यम् काथ २७५:७.
 आत्म-त्यागिन्- -गिनः वाध २३,
 १६; विध २२, ५६; -गिनाम्
 विध २२, ५९; -गी वाध २३,
 १४; १९.
 आत्म-प्राण^e- -णे वाध ३, २४.
 आत्म-दक्षि(णा >) ण^b- -णम्
 वाधुश्री ३, ३५ : १.
 †आत्म-दा^f- -दाः आप्तु १६, ७,
 ११ × ×; बौश्री.
 †आत्म-देव(ता >) त^b- -ताः या
 ८, २२.
 †आत्म-देवता^g- -तया कप्र १, १,
 १२.
 †आत्म-देवता > ^hत्य, त्या- -त्यः
 शुभ्र ४, १२२; -त्या साभ्र १,
 ५९४; ६३१-३३; अश्र १९, ५१;
 -त्यानि अअ ७, १.
 आत्म-देवताक^b- -कम् अश्र ७, १.
 आत्म-दैवत^b- -तः शुअ ३, १४२;
 -तम् ऋअ २, १०, ८५; १८९;
 अश्र ४, २; ७, ६७.
 आत्मना^o पा ६, ३, ६; पावा ६, ३, ५.
 आत्म-निष्कयण^o- -णः आप्तु ७,
 २८, ८५; -णेन वैताश्री ३४, २१.
 आत्म-नि(ष्टा >) ष^b- -ष्टः बौध २,

१०, ४९५.
 आत्म-निहत^b- -तस्य आप्तु ३,
 ११, ४ : ४२.
 आत्मनीन- पा ५, १, ९; ६, ४, १६९.
 आत्मने-पद- पा ६, ३, ७; -दम्
 पा १, ३, १२; ४, १००; पावा
 १, ४, १; -दस्य पावा १, ३, ६७;
 -दात् पावा ३, १, ८७; -दानाम्
 पा ३, ४, ७९; पावा २, ४, ८५;
 -दे पा ७, ३, ७३; पावा १, ३,
 ६०; ४, ५३; -देन पावा ७, २,
 ३६; ५८; ५९; -देषु पा १, २,
 ११; २, ४, ४४; ३, १, ५४;
 ७, १, ५; ४१; २, ४२; पावा
 ३, ४, ७९.
 आत्मनेपद-ग्रहण^o- -णम् पावा
 १, ४, १०१.
 आत्मनेपद-दर्शन^o- -नात् पावा
 १, ३, ६२.
 आत्मनेपद-नियम- -मे पावा
 १, ३, ७९.
 आत्मनेपद-पर^b- -रे पावा ७,
 २, ५९.
 आत्मनेपदपर-प्रतिषेध^c-
 -धे पावा ७, २, ३६; ५८.
 आत्मनेपद-प्रतिषेध^c- -धः पावा
 १, २, १; ३, ६२; ७९.
 आत्मनेपदप्रतिषेधा(ध-अ)र्थ-
 -र्थम् पावा १, ३, ६७.
 आत्मनेपद-भाव^c- -वः पावा १,
 ३, ६२.
 आत्मनेपद-वचन^c- -नम् पावा
 १, ३, १२^२; २, ४, ७९; -नात्
 पावा १, ३, ६०.
 आत्मनेपद-विधान^c- -ने पावा

१, ३, ६७.
 आत्मनेपद-विधि^c- > ^oधि-नि-
 ष्ट-सार्वाधातुकद्विग्रहण^c- -णेभु
 पावा १, ३, १०.
 आत्मनेपदविध्य(धि-अ)र्थ-
 -र्थम् पावा ३, १, ४०.
 आत्मनेपद-विषय^b- -यात् पावा
 ७, २, ३६; -ये पावा १, ३, १२.
 आत्मनेपद-शबादि-विधि-प्रति-
 षेध^b- -धः पावा ३, १, ८७.
 †आत्मनेपदा(द-अ)कर्मक^l-
 -काणाम् पावा ३, १, ८९.
 आत्मनेपदा(द-अ)भाव^o- -वः
 पावा १, ३, ६०.
 आत्मनेपदा(द-अ)र्थ- -र्थम् पावा
 ३, १, ५; ५२.
 आत्मने-भाष^l- पा ६, ३, ७.
 आत्मनेभाष-परस्मैभाष^o- -षयोः
 पावा ६, ३, ७.
 †आत्मन्-वत्^o- -वत् आप्तु ४, ७, ४;
 शांश्री ५, १०, ८; कौसू १३३, ३;
 -वन्तम् बौश्री १३, ३४ : १५;
 -वान् काश्री २, ८, १४; आप्तु २,
 १०, ५; बौश्री १, १४ : १६;
 भाश्री २, १०, ६; माश्री १, २, ६,
 २५; वाधुश्री ३, ३५:४५; वाश्री
 १, ३, २, २९; हिश्री १, ८, २२.
 आत्मन्-विन्- -वी वाधुश्री ४, ६५ :
 ५; १०९ : ६.
 आत्मन्-विश्वजन-भोगोत्तरपद^o-
 -दात् पा ५, १, ९.
 आत्म-पञ्चम-संयोग- -गम् माशि
 १४, ६.
 आत्म-पद^l- -देभ्यः लाश्री ७, ६,
 १६.

a) षस. > त्स. । b) विप. । षस. । c) षस. । d) षस. उप. =शास्त्र- । e) वैप १ द्र. ।
 f) षस. उप. =कुलदेवता- । g) द्रस. । h) द्रस. > षस. > द्रस. । i) सस. । j) चस. उप. =भाषा- ।
 k) समाहारे द्रस. । l) षस. पू. =अनुगान- ।

आत्म-पाप-जिघांसा- सया बौध
४,८,९.
आत्म-प्रति(छा>)ष्ठ^a- ष्टः बौध
२,१०,४९.
आत्म-प्रत्यय-कोश^a- शः शंघ
२४५.
आत्म-प्रभाव^b- वम् वृदे ८,७८.
आत्म-प्रयोजन^c- नः आपध १,
३,३५; हिध १,१,११०.
आत्म-प्रवाद,दा^d- दा शुभ्र २,
४२८; -दाः या १३,९,११.
आत्म-प्रशंसा^e- साम् आपध १,७,
२४; हिध १,२,८१.
आत्म-प्रीति^f- तौ पा ७,१,५१.
आत्म-भैषज्य^g- ज्यम् हिध २,
४,१.
आत्म-म(य>)थी- थी या ६,१२.
आत्म-मान^h- ने पा ३,२,८३.
आत्म-म्-भरि- पा, पावा ३, २,
२६.
आत्म-यज्ञⁱ- ज्ञः बौध २, १०,
४९१; -ज्ञम् वैगृ २,१८: ६; वैध
३,७,७.
आत्म-यज्ञस^j- ज्ञाः या ८,१५.
आत्म-याजिन्- जिनः वैगृ ५, ८ :
२; बौध २, ७, १५; -जिनाम्
वैगृ २, १८ : १३; शंघ १६२;
बौध २,७,१; -जी वैगृ ५, ९ :
६; बौध २,७,१४.
आत्म-यूप^k- यः आपध २,२६,२;
हिध २,५,१९७.
आत्म-योग- गम् वैश्रौ २,६ : १३.
आत्म-रक्षा^l- क्षा अप ३६, १, ५;
आज्यो ७,११; -क्षाम् अप ३६,
२,३.

आत्म-रूप^m- पयोः वाधूश्रौ ४,
६४ : १.
आत्म-लाभⁿ- भः आशि ८, १;
-भात् आपध १, २२, २; हिध
१,६,२.
आत्मलाभीय^o- यान् आपध १,
२२,३; हिध १,६,३.
आत्म-वत् वृदे ६,१३४; १३६; ७,८२.
आत्म-वत्- वताम् वाध २०, ३;
आपध १,२०,८; २, २९, १४;
हिध १,६,२२; -वन्तः गौध ९,
६२; -वान् बौध २,९,४; विध
५१,६६.
आत्म-वाच्^p- वाचः शुभ्रा ८,२५.
आत्म-वादिन्- दिनः वृदे ७, ७१;
अशां ९,४.
आत्म-विकथिन्- थिणः बौध १,
११,२१.
आत्म-विद्- विद्ः साम् १,२०;
-विज्ञिः अप १,३९,४१.
आत्म-विद्या-परायण- णम् अप
२९,१,१.
आत्म-विरुद्ध- द्धानाम् वैगृ ४,
१४ : १४; -द्धे वैगृ ४,१३ : २.
आत्म-विशुद्धि^q- द्धये काध २७८ :
१०.
आत्म-शय्या- य्या बौध १,५,५३.
आत्म-संयुक्त- क्तम् आपध १,१०,
२५; हिध १,३,५२.
आत्म-संयोग- योगे हिध १,२,९४४;
पावा ३,१,८७; -गेन आपध
१,८,६४.
आत्म-संस्कार^r- रत् काश्रौ ४,१२,
१५; -रेण आपश्रौ २१, ३,८;
हिश्रौ १६,१, ३९.

आत्म-संस्ताव^s- वः वृदे ४,१३५.
आत्म-सद्^t- सद्ः आपश्रौ ६,२१,
११.
आत्मसत्-तम- मानि निस् ६,
७ : १३.
आत्म-सनि^u- नि शश्रौ ४,१३,
१; आपश्रौ ६,११,५; बौध्रौ ३,
७:२; भाश्रौ ४,२२,४; वाधूश्रौ
२,१६ : २; हिश्रौ ३,७,९२.
आत्म-संधि^v- धौ बौश्रौ १०,२८:
६; ४६ : १९; वैश्रौ १८,१६:७८.
आत्म-सप्तम^w- मान् बौध २,९,९.
आत्म-समारोपण^x- णम् बौध
३,२,१४.
आत्म-समारोपण- णम् आमिगृ
२,७,१० : ५.
आत्म-संपत्-कर^y- रम् आज्यो ९,
२.
आत्म-संभावित- तस्य सु २,५.
आत्म-साचिन्^z- ची सु २५,२; ४.
आत्म-सात् कप्र १,६,१५.
आत्म-सुखे(ख-इ)च्छा- छ्छ्या
विध ५१,६८.
आत्म-स्तव^{aa}- वः ऋअ २, ४,४२;
१०, १२४; -वम् वृदे ८, ४२;
८२; -वेषु वृदे २,८७.
आत्म-स्तुति^{ab}- तिः ऋअ २, ३,
२६; शुभ्र १,५४०.
आत्म-स्थ^{ac}- स्थाः बौध २,१०,४७.
आत्म-स्पर्ण^{ad}- णः वाधूश्रौ ४,
६५ : ६; १०९ : ७; -णम्
वाधूश्रौ ४,१०९ : ४.
आत्म-सक्ति^{ae}- क्तिषु बौशु ९ : ७.
आत्म-स्वस्वययना(न-अ)र्थ- र्थेन
आपध २,११,९.

a) विप.। बस.। b) षस.। c) विप.(ऋच्-), नाप.(आचार्य-[या.])। उस. उप. अण् प्र.।
d) सस.। e) विप.(श्लोक-). तदस्यप्रयोजनीयः छ> ईषः(द्रु.पा ५,१,१११)। f) वाच आत्मेति षस. परनिपातः।
g) परस्परं पाभे.। h) वैप १ द्र.। i) षस.>उस.। j) विप.। उस.।

आत्म-हृत्- -तस्य सुध १६.
 आत्म-हृन्- -द्वा वाध २३, १५.
 आत्म-हनना(न-अ)ध्यवसाय- -ये
 वाध २३, १८.
 आत्म-हित- -तैः वृदे ८, ६८.
 आत्महितै(त-ए)वि(न>)णी-
 -णी वृदे ४, १३१.
 आत्मा(त्म-अ)ङ्ग^१- -ङ्गानि वृदे ४,
 २३; -ङ्गैः अप्राय ३, १०१.
 आत्मा(त्म-अ) दाना(न-अ)भिसं-
 बन्ध- -न्धात् वृदे ६, ९६.
 आत्मा(त्म-आ)दि- -दीनाम्
 आश्रौ ४, १, १७.
 आत्मा(त्म-अ)धीन- -नम् आपध
 १, १५, २२; हिध १, ४, ८१.
 आत्मा(त्म-अ)ध्वन्- -ध्वानौ पा
 ६, ४, १६९.
 आत्मा(त्म-अ)भिमर्शन^२- -ने
 जैश्रौका १०६.
 आत्मा(त्म-अ)भिमुख^३- -खम् कप्र
 २, ५, १७.
 १आत्मा(त्म-अ)र्थ- -र्थम् हिपि २३:
 ११; आपध २, ८, ४; हिध २,
 १, १०५.
 २आत्मा(त्म-अ)र्थ^४- -र्थे बौध ३, ६,
 १; विध ३७, २७; ४८, १; आज्यो
 २, ४; -र्थेषु आपध १, ८, २५०.
 आत्मा(त्म-अ)लङ्कार^५- -रान् अप
 ११, १, १२.
 आत्मा(त्म-आ) लम्भ^६- -म्भे कप्र
 १, २, १३.
 आत्मा(त्म-अ)विरोध^७- -धेन

आमिष्ट २, ६, ४ : १६.
 आत्मा(त्म-आ)शिस^८- -शिशः कौसू
 ६०, ११.
 आत्मीय^९- -यम् वैगृ ५, १ : ३;
 विध २२, २०.
 आत्मीय-धर्म- -र्मेषु अप ७०^१,
 १६, २.
 आत्मे(त्म-इ)न्द्रिय^{१०}- -याणि वाध
 ३०, ५१.
 आत्मे(म-इ)न्द्रिय-समायुक्त^{११}-
 -क्तम् अप ३७, ४, १.
 आत्मे(त्म-इ)ष्टका^{१२}- -काः आपश्रौ
 १७, ७, ६; वाश्रौ २, १, ८, २; वैश्रौ
 १२, ५ : ४१; हिश्रौ १२, १, १८.
 आत्मो(त्म-उ)क्त- -क्तः निस् ५,
 ८ : १५.
 आत्मो(त्म-उ)पजीविन्^{१३}- -विनः
 गौध १०, ३१.
 आत्मो(त्म-उ)पवलय-मध्य^{१४}-
 -ध्यात् वौशु ६ : १०.
 आत्मो(त्म-उ)पासन-क्रम^{१५}- -मेण
 वैगृ ५, १ : १५.
 ?आत्यद्गोहृन् वाश्रौ २, २, ३, ३.
 आत्यन्तिक, की- अत्यन्त- द्र.
 आत्ययिक- अती(ति/इ)- द्र.
 आत्यष्ट- अत्यष्टि- द्र.
 ?आत्रिकाः भैअ २७.
 आ-त्रिरात्र^{१६}- -त्रम् हिश्रौ १६, १, ४७.
 आत्रेय-, -यायण-, १आत्रेयी-
 अत्रि- द्र.
 २आत्रेयी^{१७}- -यीम् वाध २०, ३४; ३५;
 आपध १, २४, ९^१; हिध १, ६,

५८^१; -य्याः बौध १, १०, २४;
 २७; २, १, ११; -य्याम् गौध
 २२, ११^१.
 ?आत्रेयी-गर्भ-राजन्य-वैश्य^{१८}- -इयौ
 काध २७५ : ८.
 आत्रेयी-विनिपूदक^{१९}- -क्तः शंघ
 ३३८.
 आथर्वण, णिक-, णी- अथर्वन्- द्र.
 आ/दघ्, आदघत् बौश्रौ ६, १६ :
 ७१.
 आ-दघ्न^{२०}- -घ्नासः या १, ९१.
 आ-दत्ता- आ/दा द्र.
 आ/दद्, आददते^{२१} बौश्रौ २, १७ :
 १; १२, १ : ११; १४, १३ : २५;
 हिश्रौ १३, ८, २६; आमिष्ट ३,
 ५, ४ : १; ९; १६; बौपि १, ३ :
 ११; १८; २५; आददतः आपश्रौ
 १७, २६, १५; आददेयम् हिष्ट १,
 ११, ११^२म.
 आ-ददत्-, -ददान- आ/दा द्र.
 आ-दधत्-, -दधान- आ/धा द्र.
 आदयित्वा /अद् द्र.
 आ-दर- प्रभृ. आ/द (आदरे) द्र.
 १आदर्श^{२२}- -शात् वाध १, ८.
 २आ-दर्श- आ/दृश द्र.
 आ-दशाह^{२३}- -हम् बौध १, ५, ९०.
 आ/दह>आ-दहन^{२४}- -नम् बौश्रौ
 १४, १९ : ३१; आमिष्ट ३, ६,
 ३ : १२; ८, १ : २५; बौपि १,
 ११ : ९; १५ : २; कप्र ३, २, ७;
 -नस्य आगृ ४, १, १५; -नात्
 कागृ १४, ५; बौपि १, ११ : ५;

a) षस. । b) द्वितीयासमासः (तु. ऐमा ८, १०) । c) पामे. पृ ५०६ t द्र. । d) वैप १ द्र. ।
 e) द्रस.>नुस. । f) विप. । उस. । g) षस.>षस. । h) अस. वा. क्वि. । i) =रजस्वला- स्त्री- ।
 व्यु. ३। <अत्र L<एतद्-] इति वाध २०, ३६ । j) परस्परं पामे. । k) पाठः समासश्च ? । l) प्रपु १
 रूपम् । m) पाठः ? आददेऽहम् इति संस्कृतः टि. शोधः (तु. सपा. पागृ २, २, १२ अहम्...आददे इति पामे.) ।
 n) =देश-विशेष- (यत्र सरस्वती नदी ईषद् दृष्टिगोचरा [अन्तर्हितप्राया] भवति [तु. सप्र. बौध १, १, २५, अ-दर्शनात् इति,
 अनुः २, २१ विनशानात् इति]) । =पर्वत- इति पाम २, ४, १० प्रभृ. ।

गोय २,१,४; -ने कौय ५,२, १३; कौसू १५, ४; छद, १४; ८२, २२१; अप १, ५१, ७१. आदहना(न-अ)सि^० -सि: बौश्री २४, २६ : २.

आदह^० पाग १, ४, ५७.

आ/दा^० आदत्ते शांश्री १८, ८, १६; काश्री २०, १, २५^०××; आपश्री; या २, ९; १३^१; ५, १२; ७, १४. ऋआददे^० वैताश्री ६, १^१; ऋप्रा ४, ४०; आ(ददे) साअ १, २, १६१. आददाति वैश्री ११, १० : ४; वैध २, ३, २; ८, १; आज्यो १०, ५^१; आददाते आपश्री १५, ९, १०; बौश्री ७, १६ : १; भाश्री ११, ९, १३; हिश्री ८, ७, ५; आदत्तः आपश्री १५, ७, ८; आद-दते आपश्री १५, १, ६१; बौश्री; आ...ददते आपश्री ११, १६, १७; आ(ददते) आपश्री ११, १७, १^१; आदत्से अअ १२, ५(६)१. आददे^० काश्री २५, ११, २२१; आपश्री १६, २०, ६१; बौश्री १०, २६ : ५१^१××; हिश्री ११, ६, ५३१^१; आपमं; ऋआ...ददे आपश्री ९, १८, १५; बौश्री २८, ७ : १०; वैश्री २०, ३६ : ३; आपमं २, २१, ३३; भाग २, २६ : १३; हिग १, १५, ६; कौसू ३६, ३९; अअ ७, ११४; ऋआ (ददे) आपमं २, २१, ३३; पाग ३, १३, ६^१; भाग २, २२ : १३; कौसू ४७, ५०; ऋप्रा २,

३८; आदघहे शांश्री १२, १४, ११; आ...दअहो३म् आश्री ८, ३, १०; आदत्स्व भाग १, ११ : १०; कौसू ३७, ७; आदद्ध्वम् वाधूश्री ३, ७५ : ६; आदत्त कायउ ४० : ९^१; वाधूश्री ३, १९ : ८; आददत्त वाधूश्री ४, २६ : ४; आददित आश्री १, ७, ४; ५, ६, ९; बौश्री; या १, ७; ६, १६; आदद्यात् वैश्री १३, ४ : ११; विध; आददीयाताम् वाध ३, २४; आदद्याताम् विध १८, ३८; आददीरन् वैग १, ७ : १५; आदद्युः जैश्रीका २००; २०९; विध १८, ७; ३६; आददीय बौश्री १४, १८ : १५; १७; आददीमहि या ३, ११. आदन् शैशि २९०^१; आदिप्रत वाधूश्री ४, २६ : ५; १२; आदि माश्री ६, १, ६, ५^१. आदीयते बौग १, १, ७; ८; या ४, २. आदापयति आपश्री २४, १३, ४; हिश्री ४, ४, ३५; ७, ४, १७; २१, २, २५; हिग १, १२, १४; कौसू ८०, ४६; ४८; आदापयेत् आश्री १, ४, ९; निस् ६, १२ : ५. आ-त्त- -त्तः बौग ४, १, ५१; -त्तम् काश्री ७, ४, ३३; १०, १, ४; बौश्री ७, १४; ३१; ३६; ४०; गोय ३, १०, २२१; या ५, १३; -त्तान् काश्री ९, ४, २६; -त्तानाम् काश्री ९, ४, २३; -त्ते आपश्री २, १८,

७; -त्तेषु दाश्री १५, २, ८; लाश्री ५, १०, ८. आत्त-छत्र^१ -त्रः भाग २, २६ : ९. आत्त-तेजस्^१ -जसाम् आपध २, २२, १०; हिध २, ५, ९७. आत्त-धनू^१ -न्वः कौसू १०४, २१. आत्त-वीर्य^१ -र्याणि गौध ९, ५८. आ-द(त्त>)त्ता- -त्ते भाश्री २, १६, १२. आ-ददन्- -दत् हिश्री ८, ७, ६९. आ-ददान, ना- -नः आपश्री १२, ९, २; बौश्री; आग ४, २, २०^०म; -नस्य अअ १२, ५१; -ना आमिग ३, ५, ६; १८१; २०; २२; ४ : ११^११^०म; १२; -नाः बौश्री २, ९ : ११; १४, २१ : २१; वाधूश्री ४, १०२ : १७; बौपि १, ५ : ५; ७; ९. १आ-दान^० -नम् काश्री २६, १, १९; आपश्री ७, ९, ७; १४, ५, १६; बौश्री २०, ८ : १; १२; २६, ५ ; ९; हिश्री ७, ६, २; ७, ४; ९, ८, १०; निस् ४, १ : ४१; ८, ९ : १२; -नस्य मीस् ६, ७, १२; -नात् भाश्री ६, १६, १०; माश्री १, २, २, २५; गौध ४, १२; -ने बौश्री २०, २७ : १३; २२, १ : ६; ४ : २६; गौध १, ६१; मीस् ४, २, ६; ६, ७, ११; -नौ^० हिश्री ८, ७, १०.

a) षस. । b) द्विसोपक्रमकुसनेषु अव्य. (तु. पागम.) । व्यु. ? । c) वैप १ द्र. । पा १, ३, २० परामृष्टः द्र. । d) आदाय इति web. । e) वैप १, ६४५ k द्र. । f) आदधे इति C. । g) पाठः ? आद-दीत इति शोधः । h) वैप १, ६४५ m द्र. । i) पाभे. वैप १, ६४६ b द्र. । j) पाभे. वैप १ परि. आधत्त मा २, ३३ टि. द्र. । k) वैप १, ६४६ i द्र. । l) विप. । षस. । m) पाभे. वैप १ परि. आददानः ऋ १०, १८, ९ टि. द्र. । n) गस. उप. भावे ल्युट् प्र. । o) =मन्त्र- । उप. करणे ल्युट् प्र. ।

आदान-काल- -ले काश्रौ १,
१०,९; २०,१,८.
आदाना(न-आ)दि- -दि आपश्रौ
१,२१,३.
आदानीय- -ये माश्रौ ५,२,२,
२६.
आ-दापन- -नम् आश्रौ ३,४,२.
आ-दाप्य शाश्रौ १, ६, १६; ५,
११,५.
आ-दाय आश्रौ १,४,१३××, शाश्रौ;
या ११,२१.
आदाय-चर- पा ३,२,१७.
आ-दायिन्- -यी हिश्रौ १५,३,५.
आ-दास्यत्- -स्यन् बौध १, ५,
२२; २३.
आ-दि- पाग ४, ३, ५४; -द्यः
नाशि २, १, ९; -दि अप ३३,
२, २; -दिः वौश्रौ २०, २ :
४१; द्राश्रौ; -दिना काश्रौ
१५, ७, ९; आपश्रौ; -दिभिः
अप५, ३, ४; वृदे ६, ८०; -दिम्
आश्रौ १, ३, ६; काश्रौ १, ३,
७; जैश्रौ १७ : १८; या १, २^२;
ऋप्रा १२, २; वेज्यो ११; -दिषु
कप्र १, ५, १०; २, ८, १६; विध
८५, ५३; शौच १, ८२; -दो
लाश्रौ १, ५, ७; -दीनाम् भास्
३, ७; -देः शुप्रा १, १३५; पा;
-दौ आश्रौ ५, १०, १६ × ×;
शाश्रौ; पावा ६, १, १५७; १५८;
°आदि- -दि^३ ऋअ २, ८, ४६;
-दी पा ५, ३, ५८; -दीन् वैश्रु
१, ४ : २८; ४, १४ : १०.
आदि-कर- पा ३, २, २१.
आदि-कर्मन्^४- -र्मणि पा ३,

४, ७१; पावा ३, २, १०२.
आदि-ग-त्रय^५- -यम् भाशि
१०९.
आदि-ग्रहण- -णात् पावा ६,
१, ६७; ७, २, ६२; -णेन द्राश्रौ
१, १, २; ६; लाश्रौ १, १, २; ६; ६,
३, १; द्रागृ १, १, १८.
आ, °आ]दि-ग्रहणा(ण-आ)-
नर्थक्य- -क्यम् पावा ६, १,
१६३; ४, १४१.
आदि-चतुर्थत्व- -त्वे पावा १,
१, ५८.
आदि-तस् (:) आश्रौ ४, १३,
७××; शाश्रौ; या २, १५; पा
१, २, ३२; ३, ४, ८४; पावा ५, ४,
४४.
आदि-त्यदादिविधि-संयोगादि-
लोप^६- पावा ६, १, १३.
आदि-त्रय- -यम् भाशि ९१.
आदि-देव^७- -व विध ९८, ९;
-वः विध १, ११; -वम् शैशि
३६०.
°आदि-द्वय- -यम् भाशि ११०.
°आदि-पूरण^८- -णः पिं ३, २.
आदि-प्रदिष्ट- -ष्टाः आपश्रौ २४,
२, ३; भाश्रौ १, १, २१; हिश्रौ
१, १, ३०; -ष्टानि शाश्रौ ६, १,
२५.
आदि-प्रवाद^९- -दैः आपश्रौ १८,
२२, ११; हिश्रौ १३, ७, ३०.
आदि-प्लुत^{१०}- -तौ वैताश्रौ
१९, ८.
आदि-भङ्ग^{११}- -ङ्गे अप १९, १, १२.
आदि-भू(त>)ता- -ता
जैश्रौका १२२.

१आदि-म- पावा ४, ३, ८.
२आदि-म- पावा ४, ३, २३;
-मम् कौशि ६.
आदि-मध्या(ध्य-अ)न्त^{१२}- -न्तेषु
गौध २, ४३.
आदि-मध्या(ध्य-अ)वसान^{१३}->
°न-गत- -तः उनिस् १ : ५९.
आदिमध्यावसानि(क>)-
का- -काः वौश्रौ २७, ४ : २.
आदि-रङ्ग^{१४}- -ङ्गम् शैशि २३१.
आदि-लुप्त^{१५}- -सम् या १०, ३४.
आदि-लोप- -पः या २, १; -पे
पावा १, १, ६७.
आदिलोपा(प-अ)न्तलोप^{१६}-
-पौ ऋप्रा १४, १४.
°आदि-लोप- -पे पावा १, १,
५७; २, ४१.
°आदि-लोप-निपातन- -नम्
पावा ६, ४, १७४.
आदि-वत् अप १८^१, १, ४.
आदिवत्-त्व- -त्वात् पावा
१, २, ४; ४५; ६, १, ४५; -त्वे
पावा १, १, २१; ६, १, ८४.
आदि-विकल्प^{१७}- -ल्पः काश्रौ ४,
५, २४.
आदि-विकार- -रे पावा ६, १, २.
आदि-विकृत^{१८}- -तौ उस् ४, ५.
आदि-विपर्यय- -यः या २, १.
आदि-वृद्धि- -द्धेः पावा ७, ३,
१०; -द्धौ पावा ७, २, ११७.
आदि-व्यञ्जन- -नात् शाश्रौ १,
१, १९.
°आदि-शेष^{१९}- -शे पावा ७, ४, ६०.
आदि-शेष-निमित्तत्व- -त्वात्
पावा ७, ४, ६०.

a) भिसो लुक् छान्दस इति षड्गुरुशिष्यः । b) मलो. कस. । c) उस. >
षस. । d) द्रस. । e) विप. । बस. । f) षस. । g) =अनुनासिकसंज्ञा- । h)

सस. ।

आदिशेष-प्रसङ्ग- -ने पावा ७,
४,६१.
आदि-संयोग- -गः आपश्चौ २४,
२,२; मीसू १२,३,२६.
आदि-संशय- -यात् शुभा ५,
३८.
आदि-सदेश- -शे गोगृ २,६,१.
आदि-सामर्थ्य- -थ्यात् काश्रौ
४,२,३०.
आदि-स्थ- -स्थानाम् ऋप्रा १४,
१८.
आदि-स्वर- -रः ऋप्रा ४,८१.
आदि-स्वरित^b- -तानि अप्रा
१,३,९.
आद्य,द्या- पा ४,३,५४; पाग
६,२, १३१; -द्यः आश्रौ ८, ५,
१३; काश्रौ; अद्य ४, १६१^c;
-द्यम् आश्रौ ६, ३, ८; १०;
४,८; ७, ११, ३६; वाश्रौ; -द्या
आश्रौ ४, ६, ३; जैगृ; -द्ययोः
अअ २०, ९; ५८; ८५; १०३;
-द्यस्य दाश्रौ ८, ४, ६; लाश्रौ ४,
८, ३^d × ×; अद्य; -द्या आश्रौ
२, १, ३२; काश्रौ; -द्याः
आश्रौ २, ११, ६ × ×; आपश्चौ;
-द्यात् अपं ४ : ९; नाशि २, ७,
७; -द्यान् आश्रौ ५, ६, २८ × ×;
शाश्रौ; जैश्रौप ४^e; -द्यानाम्
अअ २, १९; २०, ९२; -द्यानि
आश्रौ ८, ३, १६; आपश्चौ;
-द्याभिः ऋप्रा ३, ८, २०; वैद्य;
-द्याभ्याम् आश्रौ ७, १०, १;
११, ७, ५; काश्रौ १६, ६, २८;
वृदे ३, ११४; -द्याम् आश्रौ ५,
२०, ३; ६, ४, २; काश्रौ; -द्यायाः

अअ २०, ११९; १३७; -द्यायाम्
काश्रौ २२, ८, १६; शुभ्र २, १६८;
-द्ये आश्रौ २, १७, ७ × ×;
काश्रौ; -द्येन वाश्रौ ३, ४, २,
१६; वृदे ७, २३; -द्येभ्यः काश्रौ
१०, २, २४; -द्येषु आपश्चौ १२,
२६, १७; -द्यैः वैश्रौ १०, ११;
७; अपः; -द्यौ आश्रौ ५, ३, २७;
वैगृ.

आद्य- -द्यैः वैगृ ३, १३;
६; ९; वैद्य ३, १०, २^२.

आद्य-गान- -ने जैश्रौका
१५५.

आद्य-चतुर्थ-प्रतिषेध^f- -धे
अप्रा ३, १, १३.

आद्य-तृतीय- -ययोः
वैताश्रौ ३२, १५; -ये मैअ २७.

आद्य-द्वार^g- -राणि विध ३,
५३.

आद्य-प्रथम- -मे अपं ४ : १.

आद्य-बहिष्पवमान^h- -नम्
लाश्रौ १०, ३, १७.

आद्य(द्य-ऋ) खिजू^h-
-खिग्भ्यः काश्रौ २०, १, ५.

आद्य-वत् माशि ५, १०.

आद्य-वर्णⁱ- -र्णयोः वाध
१६, ५.

आद्य-श्राद्ध^j- -द्धे वीपि २,
१०, ४.

आद्य-सहित- -तम् अप ४ :
२१.

आद्य-स्थान^k- -नम् निसू
९, ८ : ३२.

आद्य-स्था(न>)ना^l- -ना
निसू ९, ८ : ३२.

आद्या-चतुर्थी- -च्यौ ऋअ
२, ४, ५७; १०, २६.

आद्या-चतुर्थी-दशमी-द्वाद-
शी- -दयः ऋअ २, ३, २९.

आद्या-तृतीया- -ये अअ ६,
७४.

आद्या(द्या-आ)द्य^m- -द्यः अअ
२, १७.

आद्या(द्य-अ)न्य,न्या-
-न्ययोः उनिसू १ : ४६; -न्ये
ऋअ २, १, ८८; ३, २०; १०, २३;
-न्यौ ऋअ १, ८, ८; २, ३, ५१;
शुभ्र ५, ५८ⁿ; ऋप्रा १६, २७.

आद्या(द्य-अ)भिप्लव^o- -वस्य
दाश्रौ ८, ४, ३^d.

आद्यो(द्या-उ)त्तम, मा-
-मयोः आश्रौ २, १६, २७; -माः
अप २, ६, ४; -मे आश्रौ २, १,
३१; काश्रौसं ३ : ४; ६ : ८; कौगृ
२, ४, २०, ७, ७; शांगृ २, ७, २३.

आद्यो(द्य-उ) पाद्य- -द्यान्
आश्रौ ५, ६, २७.

आद्य(दि-अ)क्षर- -रम् ऋप्रा ९,
३२; -रस्य अप्रा ३, १, १३.

आद्यक्षर-लोप- -पः पावा ५,
२, ५१.

आद्य(दि-अ)न्त- -न्तयोः शाश्रौ
६, १, १८; काश्रौ १, ९, ८; २४,
५, १८; २६, ७, ५८; वैश्रौ १९,
१० : १४; वाश्रौ १, ६, १, १;
दाश्रौ ४, १, १४; लाश्रौ २, २, २;
वैताश्रौ २, १; कागृ ५५, ५; वागृ
५, ३८; ७, ११; शोध ६८; बौध
२, ८, १८; गौध १, ५९; वृदे १,
२२; पावा १, १, २१; ४६; -न्ताः

a) षस. उप. =समीप-देश-(=समीप-काल-). आदिम^o इति Old. (तु. मूको.)। b) विप.। बस.। c) पाठः? द्याभिः इति शोधो विद्युस्यः। d) प्राप्ते. पृ ३०१ ० प्र.। e) पाठः? आद्यानि इति शोधः। f) तुस. > षस.। g) कस.। h) षस.। i) आद्य^o इति पाठः? इति. शोधः (तु. ऋअ १, ८, ८)।

निसू १,१० : २०; -न्ते जैश्रीका
 ६२; -न्तेषु निसू ६, १ : १५;
 -न्तौ वैताश्री १९, ८; पा १, १,
 ४६; पाग २, २, ३१.
 आद्यन्त-दीर्घ>घा^०-घा^०
 याशि २, ११.
 आद्यन्त-वचन- -ने पा५,
 १, ११४.
 आद्यन्त-वत् तैप्रा १, ५५;
 पा १, १, २७.
 आद्यन्तवत्-त्व- -त्वात्
 पावा १, १, ११.
 आद्यन्तवद्-भाव- -वात्
 पावा १, १, २१.
 आद्यन्तवद्-वचन- -नम्
 पावा १, १, २१.
 आद्यन्त-विधान- -ने पावा
 १, १, ४६.
 आद्यन्त-विपरीत- -तस्य या
 १०, १०.
 आद्यन्त-विपर्यय- -यः या
 २, १.
 आद्यन्त-स्तुब्ध- -ब्धेषु द्राश्री
 १०, १, ७; लाश्री^० ३, ९, ८?; ७,
 ५, २२?.
 आद्य(दि-अ)न्त^०- -न्ताः पा ३,
 १, ३२; -न्ते पावा ३, १,
 ३४.
 आद्य(दि-अ)पवर्ग- -र्गात् पावा
 ३, २, १०२.
 आद्य(दि-अ)वसान^०- -ने पाग
 २, ४, १४^d; -नैः माश्री ५, २, ८,
 ४२.
 आद्यवसान-समाधि- -धिः
 निसू ३, ९ : ५४; ४, ९ : ३;

१२.
 आद्या(दि-आ)दि^०- -दिभ्यः
 पावा ५, ४, ४४.
 आद्यु(दि-उ)क्त- -क्ताः काश्री
 १, ३, ८.
 आद्यु(दि-उ)क्त^०- -क्तम् भाशि
 ८५; -क्ताः भाशि ५३.
 आद्युत्तमा कौट २, ४,
 २१.
 आद्यु(दि-उ)दात्त^०- -त्तः माशि
 ८, ९; दंवि २, ८; पा ३, १, ३;
 -त्तम् ऋप्रा १, ८३; श्रुप्रा २,
 २२; ३, १०३; अग्रा १, १, २८;
 २, ८; २, ३, ११; ३, ४, १; २; उसू
 ४, १२; कौशि ३४; नाशि २, ७,
 ५; पा ६, २, ११९; -त्तस्य पावा
 ३, १, ३३; -त्ताः ऋप्रा १२, २३;
 -त्तात् अग्रा १, १, २३; २८;
 पावा ४, ३, १४०; -त्तानि अग्रा
 १, १, २८; ३, ४, १; -त्ते
 तैप्रा ६, १४; भाशि ८८; दंवि
 १, ५.
 आद्युदात्त-त्व- -त्वम् पावा
 ३, १, ३३; ६, १, २०३; २, १२१;
 ४, १४९; -त्वस्य पावा ३, १, ३;
 -त्वे पावा १, १, २१; ६, १, ५;
 १८३.
 आद्युदात्त-निपातन- -नम्
 पावा ७, २, ९९; -नात्, -ने पावा
 ६, १, १६३.
 आद्युदात्त-प्रकरण- -णे पावा
 ६, २, ९१.
 आद्युदात्त-वचन- -नम् पावा
 ३, १, ३; ६, १, २००.
 आद्युदात्ता(त-अ)न्तोदात्त-

विधि^०- -धयः पावा ६, १,
 २१९.

आद्युदात्ता(त्त-अ)र्थ- -र्थम्
 पावा ३, १, ३; ४, १, ४४.
 आ-दीयमान, ना- -नः निसू ६, १२:
 ५; -नम् वैताश्री २८, २१;
 आम्रिगृ ३, ५, ४ : १; ९; १६; बौपि
 १, ३ : ११; १८; २५; हिपि २ :
 ११; ३ : १; २; -नाम् आपश्री
 १, १२, ८.

१आ-दान- प्रभृ. आ/दा द्र.

२आ-दान- आ/दो (बन्धने)
 द्र.

आ-दापन- प्रभृ. आ/दा द्र.

आ-दार^०- -राः बौश्री १४, २९ : १७;
 शुअ ४, ७६; -रान् काश्री २५,
 १२, २०; आपश्री १४, २४,
 १२; बौश्री १४, २९ : १६;
 २४, १ : १५; हिश्री १५, ६,
 १५^१.

आदार-सोम^०- -मेन, -मेषु बौश्री
 २३, ८ : ३२.

आदार-स्तम्ब^०- -म्बम् बौश्री ९, १ :
 ४; १०; २ : २०.

आ-दि- प्रभृ. आ/दा द्र.

आदित्य- अदिति- द्र.

आदित्य, त्या^१- -०^१स्य काश्री १०,
 ४, ६; आपश्री ४, ३, २^६×५;
 बौश्री १, १२ : २७^६; २१ : ४^६;
 ३, १५ : ६^६; २२ : ९^६×५; २, १९ :
 २४^६; २० : १२^६; भाश्री^६ ४, ४,
 २; २२, ८; माश्री; हिश्री ६, १,
 २९^६; आम्रिगृ १, १, ४ : ८^६; बौगृ^६
 १, ५, १४; २, ५, ३७; ६८; ३, २,
 १२; २५; ३७; ५०; ३, १४; ४,

a) विप. । बस. । b) ऋब्धेषु इति पाठः ? यनि. शोधः (तु. द्राश्री.) । c) द्वस. । d) घा^०
 इति पाका. ? । e) बस. वा कस. वा । f) द्वस. > कस. । g) वै १ द्र. । h) मलो. कस. । i) षस. ।
 j) वैप १, परि. च द्र. । k) पाभे. वैप १ सूर्य मै ४, ९, २४ टि. द्र. ।

१६;३२; भाग^३ ३,४ : १०;५ :
 ७;६ : ८; हिगृ १,७, ८^३; जैगृ
 १, १२ : ६४^३; -त्यः आश्रौ
 ३, १२, २९××; शाश्रौ; हिगृ
 १, ७, ११^३; या १, ७; २, ६;
 १३^३; १४^३; १५; २१; २२; ३,
 १२^३; १६; ४, १३; १६; १८; २७;
 ५, ४; १९; २१; २४; ७, ७; ९;
 २०; २३^३; २४; २८^३; २९; ८,
 १३; ९, ४०; १०, २६; ३२; ११,
 १६; २३^३; १२, १; ३; १०; १४;
 २७-२९; १३, ११; १४, १३^३;
 १४; १६-१८; १९^३; २१; २२;
 २५; ३७; -त्यम् आश्रौ २,
 २, ४××; शाश्रौ; या २,
 ९; ७, १७; ११, ४२^३; १२,
 ९; २६; २८; ३७; १३, ३; ४;
 १४, ९; १५^३; २३; २४; २७;
 भाशि ६८^३; -त्यया आश्रौ २,
 १९, ३९; काश्रौसं २९ : ११;
 बौश्रौ १२, १९ : ८; -त्ययोः
 वृदे ५, १४९; -त्यस्य शाश्रौ १,
 ६, ५^३××; काश्रौ; निघ १, १५;
 या २, १३; १९; ५, १६; ७,
 २४; १२, ११; २१; १३, २;
 १४, १४; २९; -त्या शाश्रौ
 १४, २, १५××; वाश्रौ ३, २, ८,
 ५^३; या २, १३^३; -त्याः आश्रौ
 ४, २, ४××; शाश्रौ; निघ ५, ६;
 या ६, २७; १२, ३५; -०^३त्याः
 काश्रौ २५, १३, २६; माश्रौ ५,
 १, ८, ४; कौगृ १, १, १;
 शांगृ ४, २; कागृ ८, २; ४०,
 ९; -त्यात् आपश्रौ २३, ३, १०;

बौश्रौ; या ४, १३; ७, २३; २४;
 २६; १२, १०; १५; १३, २२;
 १४, ९; -त्यान् आश्रौ ५, १७,
 ३; शाश्रौ; पावा ६, १, ८;
 -त्यानाम् आश्रौ ३, ८, १^३; ५,
 १७, ३^३; शाश्रौ; आपमं २, १०,
 ९^३; पागृ १, ३, २७^३; मागृ १,
 ९, २३^३; हिगृ १, १३, १२^३;
 कौसू ९२, १४^३; -त्याम् आश्रौ
 १२, ७, १२; आपश्रौ; अग्र
 ३, २६^३; -त्याय शाश्रौ
 १, ४, ५; आपश्रौ; -त्यायाः
 हिश्रौ १३, ७, २२; -त्यायाम्
 शाश्रौ २, ३, १७; अशां १८, ५;
 १९, ५; -त्यासः आश्रौ ३, ८,
 १^३××; शाश्रौ; -०त्यासः कौसू
 ७३, १५; ऋग्र २, ७, ५२; या ६,
 २७^३; ऋग्रा १८, ९; -त्ये आपश्रौ
 १, १५, १××; बौश्रौ; या ७,
 २३; १२, ३७; १३, ९; १४, १५;
 -त्येन आश्रौ १, ७, ७^३; आपश्रौ;
 या ५, २१; ११, ४०^३; -त्येभ्यः
 आश्रौ ३, ८, १^३; ६, ११, १६;
 शाश्रौ; या १२, ३६^३; -त्येषु
 शाश्रौ १४, ३३, १४; आपश्रौ
 ६, ९, १; वृदे ८, ८६; -^३त्यैः
 आश्रौ २, ११, १२^३; शाश्रौ;
 आपश्रौ ४, १२, ३^३; आपमं
 २, ४, ४^३.
 आदित्य-कर्तित^३ -तम् अय २०,
 ६, ८; ७, १.
 आदित्य-कर्मन् -मं या ७, ११;
 -र्मणा या ७, २३.
 आदित्य-कीलक^३ -कैः अय ७०,

८, ३.

आदित्य-गण- -गः अय ३२, १, १९;
 -णस्य अग्रभू ३.

आदित्य-ग्रह^३ -हम् काश्रौ १०, ४,
 ३; माश्रौ २, ५, १, २; हिश्रौ १०,
 ५, ५; -हस्य शाश्रौ १४, ५६,
 १; काश्रौ १०, ४, १३; आपश्रौ
 २२, २७, ९; १९; बौश्रौ १४,
 २१ : ३६; २१, २२ : १९; २२;
 २५, १८ : ६; हिश्रौ २३, ४,
 ३७; ३९; -^३हाय आपश्रौ ११,
 २१, ८; बौश्रौ ६, ३४ : ३; ८,
 ९ : ३; माश्रौ २, २, ५, २९;
 वैश्रौ १४, २० : ७; १६, १० :
 ९; हिश्रौ ७, ८, ६८; -हे हिश्रौ
 ८, ६, ५; द्राश्रौ ५, ३, ८; लाश्रौ
 २, ७, ७; -हेण आश्रौ ५, १७,
 २; शाश्रौ ८, १, २; बौश्रौ १०,
 ५९ : ३; ११, १३ : २; १२, १६ :
 १६; १८ : २०; १५, १८ : १८;
 ३२ : ८; ३६ : १४; १७, १ :
 २३; वाधूश्रौ ४, १९ : ५.

आदित्यग्रह-ग्रहण- -णे शुभ्र ३,
 १७५.

आदित्यग्रह-संपात- -तात्

आपश्रौ १३, १०, १२.

आदित्यग्रह-सावित्र- -त्रयोः

हिश्रौ ८, ६, १५; -त्रौ आश्रौ
 ५, ५, २१; बौश्रौ २५, २० : २०;
 वंताश्रौ २०, ४.

आदित्यग्रहसावित्र-वर्जन्

आश्रौ ५, ९, २८.

आदित्यग्रह-सावित्रग्रह- -हौ

शाश्रौ ७, ३, ४.

a) पाभे. पृ ५१३ k द्र. । b) सपा. आदित्यः <> आदित्यैः इति पाभे. । c) अ० इति
 पाठः ? यनि. शोधः द्र. । d) पाभे. वैप १ परि. आदित्यानाम् ऋ ८, १०१, १५ टि. द्र. । e) पाभे. वैप १ रुद्रा-
 णाम् ऋ ८, १०१, १५ टि. द्र. । f) पाठः ? त्यान् इति शोधः द्र. । g) पाभे. वैप १, ८२१ f द्र. । h) विप. (सूत्र-)
 दृस. उप. <✓कृत् [वेष्टने] । i) मलो. कस. । j) वैप १, परि. च द्र. ।

आदित्यग्रह-होम- -मम्
 वैताश्रौ २२, १५.
 आदित्य-चरित- -तम् निसू ९, ८ :
 १०.
 आदित्य-तस् (:) या २, ६.
 आदित्य-नृती(य>)या^१- -याभिः
 शांश्रौ २, ३, १४.
 आदित्य-दर्शन- -नम् मागृ १, १९,
 १; शंघ २३; विध २७, १०.
 आदित्य दिन- -ने अप १८^२, १७,
 १; आज्यो ८, २.
 १आदित्य-देवत, ता^२- -तः गोगृ ४,
 ७, २२; साभ १, ६०९; -तम्
 शुभ्र १, १९५; ४, १६८; -ता
 शुभ्र २, १४१; -ते शुभ्र २,
 ३००.
 २आदित्य-देवता->त्य, त्या- -त्यम्
 वृदे ६, ४९; अत्र २, ३२; ९,
 ९; -त्याः अत्र १७, १; -त्याम्
 शुभ्र ३, १९; ४, ३६; -त्ये शुभ्र
 १, ४९१; -त्यौ वृदे ६, २; अत्र
 १६, २.
 आदित्य-दैवत^३- -तः वृदे ३, १०८;
 ८, ११७; या ११, ६; -तम् वृदे
 ६, ८७; अत्र ४, १; -ते वृदे ६,
 ८३.
 आदित्य-धा(मन्>)म्नी^४- -म्नीः
 माश्रौ ६, २, १, २०.
 आदित्य-नामन्- -मानि वाश्रौ १,
 ५, १, १६; २०.
 आदित्य-पात्र^५- -त्रम् काश्रौ १०, ४,
 ३; आपश्रौ १२, २, ४; १३, १०,
 ५; काठश्रौ ११५; माश्रौ २, ३,
 १, १५; ५, १, १५; वैश्रौ १५, २ :
 १२; १६, १० : १५; १२ : ६;
 हिश्रौ ८, १, २८; -त्रात् वैश्रौ

१६, १२ : ७; हिश्रौ ९, ३, ३१;
 -त्रे काठश्रौ १३६; माश्रौ २,
 ५, १, २; -त्रेण काश्रौ ९, ९, १३;
 आपश्रौ १२, २०, १९; २१, ४;
 १२; १३, ९, ५; काठश्रौ १३६;
 माश्रौ २, ३, ८, २; ११; १६; २१;
 २४; वैश्रौ १५, २५ : १३; २६ :
 ९; २७ : १०; हिश्रौ ८, ६, १७;
 ९, ३, ७.
 आदित्य-प्रभृति- -तीन् आश्रौ ५,
 ३, १३; ७, ९; -तीनि बौश्रौ १७,
 ६२ : १६.
 आदित्य-प्रवा(द>)दा^६- -दाः या
 २, १३.
 आदित्य-भक्ति^७- -क्तीनि या ७, ११.
 १आदित्य-मण्डक^८- -कः अप १८^२,
 १७, १.
 आदित्य-मण्डल- -लम् वैध १,
 ११, २; -ले कौगृ ३, १०, ९;
 शांश्रौ २, १४, ८; आमिगृ २, ४,
 १० : ३९; -लेन या १४, २९.
 आदित्यमण्डल-वत् बौश्रौ ९,
 १६ : ५.
 आदित्य-मध्य- -ध्ये या ११, २३.
 आदित्य-याज्ञवल्क्य^९- -ल्क्यौ शुभ्र
 ३, २१६.
 आदित्य-रश्मि- -श्मयः या १, ७;
 ३, १२; ४, ३; २५; २६; ७,
 २४; ११, १६; २८; १२, ३८;
 ४९; -श्मिभिः अप ५५, १, २;
 -श्मीन् या ४, ११; १४, २१;
 -श्मीनाम् चात्र ८ : ७^६; या
 १३, ३; १४, १२^६; १३^६.
 आदित्यरश्मि-देवता->त्य-
 -त्यम् अत्र ६, २२.
 आदित्य-रूप- -पम् वाधूश्रौ ४,

११५ : ३; ११८ : २.
 आदित्य-लोक- -कः अप ३०, ४,
 ३; -कम् हिश्रौ १८, २, ४.
 आदित्य-वत् पावा १, २, ६४; मीसू
 १, १, १५.
 १आदित्य-वत्- -वतः काश्रौ १०,
 ७, १३; -वते आश्रौ ५, १, १५;
 शांश्रौ ६, ७, १०; बौश्रौ ७,
 ५ : ११; ९, १० : १०; १३,
 २० : १३; माश्रौ ५, १, १०, ५;
 हिश्रौ २२, ३, २०; -वन्तम्
 आश्रौ ५, ३, १०; शांश्रौ ६, ९,
 १३; माश्रौ ५, १, १०, ६; हिश्रौ
 २२, ३, ३०; -वान् आश्रौ २,
 ११, ११; काश्रौ १०, ७, १३.
 आदित्यवती- -तीः बौश्रौ
 २१, १५ : ६; २५, १७ : २;
 -तीन् आपश्रौ ११, ५, १;
 बौश्रौ १, ११ : २६; ६, २३ : ३;
 माश्रौ २, २, ६; हिश्रौ १, ६, ९१;
 -तीषु काश्रौ २५, १३, ६; माश्रौ
 ३, ७, १०; जुसू १, १० : ९.
 १आदित्यवद्-गण^{१०}- -गन्त्य
 आपश्रौ १२, २, ४, ७; बौश्रौ ८,
 १२ : ३६; २५, २३ : १२; २४ :
 १९; माश्रौ २, ५, १, ३३; वैश्रौ
 १६, १४ : ९; हिश्रौ ८, २, २०;
 -गेन आपश्रौ १४, ३, ५; बौश्रौ
 २६, १५ : ११; १८; २७; हिश्रौ
 ९, ७, ३२.
 १आदित्य-वर्णि^{११}- -निः बौश्रौ ४, ३ :
 ९; माश्रौ ७, ४, ९; वैश्रौ १०,
 ५ : १२; हिश्रौ ४, २, १०.
 आदित्य-वर्ण^{१२}- -र्णः चव्यू ४ : १८.
 आदित्य-वस्व (सु-अ) ऋः-पितृ-
 -तृन् अत्र २, १२.

a) विप. । बस. । b) =इष्टका-विशेष- । बस. । c) वैप १, परि. च द्र. । d) विप. । बस.(तु.
 स्क.; वैतु. दु. उस. [तु. अभि-भक्ति-] इति) । e) अर्थः! । f) ऋषि-विशेषयोः द्रस. । g) =ऋषि-विशेष- । बस. ।

आदित्य-वार- -रे आमिगृ २, ४,
११ : ४.
आदित्य-विप्र-जातवेद- -दाः नाशि
२, ३, १०†.
आदित्य-व्रत^०- पावाग ५, १, ९४;
-तम् शाश्रौ १२, ९, १२; हिश्रौ
१६, ५, २९; निसू २, २ : २९;
गोगृ ३, १, २८; द्रागृ २, ५, १८;
चाअ ८ : ५.
आदित्यम्रा.व्रातिक^०- पावा ५,
१, ९४; -कः जैगृ १, १६ : ३;
-के जैगृ १, १६ : ६.
आदित्य-संवत्सर^०- -रः निसू ५,
१२ : २; १५.
आदित्य-सकाश- -शात् वाश्रौ १,
२, ३, १०.
आदित्य-संक्रमण- -णम् विध ७७,
१.
आदित्य-सदृश- -दृशम् निसू ३,
१२ : ३०; ४१.
आदित्य-संभव^०- -वाः अप ५२,
१२, ४.
आदित्य-सार्प-पैश्य- -श्याणाम्
अशां ६, ३.
आदित्य-सौर्य-यास्य- -म्यानि मागृ
१, ४, १६.
आदित्य-स्तुति- -तिः या ४, १३.
आदित्य-स्थाली^०- -ली काश्रौ ९,
२, १२; बौश्रौ २५, १३ : १३;
-लीम् आपश्रौ १२, २, ४; २१,
१२; काठश्रौ ११५; बौश्रौ ७,
२ : १३; ८, १० : १३; माश्रौ
२, ३, १, १५; ८, २२-२४; ५, १,
१५; वैश्रौ १५, २ : १२; २७ :

१०; हिश्रौ ८, १, २८; -स्याः
आपश्रौ १३, १०, १२; बौश्रौ ७,
१२ : १९; ३६; ४८; ८, ९ : १३;
२५, १३ : १६; माश्रौ २, ५, १,
२; ३; वैश्रौ १६, १० : १६; ११ :
३; हिश्रौ ९, ५, १२; -ल्याम्
काश्रौ ९, ९, १८; आपश्रौ १२,
२१, ४; १३, ९, ५; काठश्रौ १३६;
बौश्रौ ७, १२ : ३२; ४५; ५७;
८, ९ : १४; २५, १८ : ५;
माश्रौ २, ३, ८, ११; १६; २१;
वैश्रौ १५, २६ : ९; हिश्रौ ८, ६,
२४; ३१; ९, ३, ७; ९.
आदित्यस्य(अयन-)^० लाश्रौ १०,
१३, १०.
आदित्या (त्य-आ) कृति^०- -तिम्
माश्रौ ११, १४, १६; माश्रौ ४,
४, १४.
आदित्या(त्य-आ)दि^०- -दीन् अप
३०^२, १, १४; अअ ५, २१;
-दीनाम् अशां १४, २; -दौ
याशि २, ५७.
आदित्यादि-ग्रह- -हेषु अप
२६, ५, ७.
आदित्यानाम्-अयन^०- -नम् आश्रौ
१२, १, १; ५, ७८; शाश्रौ १३,
२८, २; आपश्रौ २३, ९, १६;
१४, १०; बौश्रौ १६, १६ : ३;
२६, १७ : ८; निसू १०, ६ : ५;
८ : ५; -ने शाश्रौ १३, २१, १;
काश्रौ २४, ४, ३; -नेन आश्रौ
१२, २, १; शाश्रौ १३, २२, ६;
आपश्रौ २३, ९, १; हिश्रौ १८,
३, ६; १५.

आदित्यानामयन-वत् काश्रौ २४,
४, ११.
आदित्यानां-प्रयति^०- -तिः आपश्रौ
२२, ५, १५; हिश्रौ १७, २, ४३.
आदित्या(त्य-अ)न्त^०- -न्तम् वाश्रौ
१, ७, ४, ७८.
आदित्या(त्य-अ)भिमुख^०- -खः
कौगृ ३, ११, २३; आमिगृ २, ६,
८ : १४; अप ४०, ६, ११; बौध
३, ५, २; -खम्^० वैगृ १, ३ :
१६; २, १८ : ११.
आदित्या(त्य-अ)भिव्याहा (र<)
रा^०- -रे शाश्रौ १४, ३६, २.
आदित्या(त्य-अ)भ्यय^०- -ये काश्रौ
८, ९, १२.
आदित्या (त्य-आ) रम्भण^०- -णम्
आपश्रौ १३, ९, १; हिश्रौ ९,
३, १.
आदित्या(त्या-आ)श्रावण-प्रभृति^०-
-ति बौश्रौ २२, २१ : ७.
आदित्या(त्य-अ)स्तमन^०- -ने काध
२७६ : १२.
आदित्यी^०√कृ>आदित्यी-कृत्य या
७, २८.
†आदित्ये (त्य-इ) टिका^०- -काः
आपश्रौ १७, ५, ६; बौश्रौ १०, ४५;
२६; माश्रौ ६, २, २, ११; वैश्रौ
१९, ५ : २१; हिश्रौ १२, २, ४;
-काभिः आपश्रौ १७, ५, ८†^०;
वैश्रौ १९, ५ : २२.
आदित्ये(त्य-इ)ष्टि^०- -ष्टिः वैताश्रौ
९, २३; ३०, ४; २६.
आदित्यो(त्य-उ)दय- -ये विध ८,
१९; या १२, ११.

a) =साम-विशेष-। b) ष्र इति पावा। विभाषया उभयपदवृद्धिः उत्सं. (पा ७, ३, २०)। c) नाप.।
षस.। d) विप.। बस.। e) =सत्र-विशेष-। f) द्वितीया-समासः। g) वा. क्विवि.। h) विप. (निविद्धाना-]नृच-).।
बस. पूष. =एकाह-। i) =आदित्याऽस्तमय-। j) षस.>बस. वा. क्विवि.। k) षस. उप. पृ ४६३ अ द.।
l) वैप १ द.। m) उत्तरेण समस्तः पाठः ? यनि. शोधः (तु. सप्र. वैश्रौ. C. च)।

आदित्यो(त्य-उ)पप्लव^१- वे कौसु
९३,७.

आदित्यो(त्य-उ)पस्थान- -नः^२
आपश्रौ १२, २१, ११; -नम्
शाश्रौ ६,१३,१३; आपश्रौ १०,
२४,१; २७,४; वाश्रौ ३,२,६,
४५; वैश्रौ १५, २७ : ३; ७;
हिश्रौ ७, २, ३५; हिपि १९ :
१२; गौध २६,१३; -नात् बौध
३,४,७; -नेन हिश्रौ ६,१,३१;
१०,५,१२; २२.

आदित्यो(त्य-उ)पहित- -तम् या
२,८.

आदित्यो(त्य-उ)पासन- -नम् शुभ्र
४,१३०.

आदिन्- ,दिनी- √अद् द्र.

१-२आदिम- प्रभृ. आदिदा द्र.

आदिश>आदेवन^३- -नम् कौसु
४१, १२; -नात् गोश्रु २,१,
४.

आदिश(बधा.), आदिशयेत् अप
५३,३,२.

आदिशति शाश्रौ ८, ११, ६;
काश्रौ; आदिशन्ति निस् ९,
१३: २५; २६; अप ७०^३, ११,
२१; शंघ ७७; आदिशेत् आश्रौ
१, २, १; कौश्रु २, ७, ८; ११;
आदिशेत् काश्रौ १५, २, १०;
जैश्रौ.

आदिदेश या २, ८; आदेक्ष्यत्
निस् ९,१०: २२^३; आदेक्ष्यामः
लाश्रौ ८, ८, २९; निस् २,६ :
२८.

आदिशयते निस् ९,७ : ३; १८;
१९; १२ : ७; १३ : ३१; १०,

३ : १२; १२ : ५.

आदेशयेत् जैश्रु १,१८ : १५.

आदिश^४- -दिशः बौश्रौ ४, ९ :
२७; वैश्रौ ८,७ : ९; हिश्रौ ४,
५,२४; जैश्रौ ११ : ८; पाश्रु ३,
३,६^०; माश्रु २,८,६^०; -दिशम्^५
आपश्रौ १२,१४,१५; हिश्रौ ८,
४,१७.

आदिशत्- -शन् हिश्रौ ४,३,३८;
द्राश्रौ ३,२,१८; ३,१८; ५, १,
५; लाश्रौ १,१०,१३; ११,१०;
२,५,५.

आदिश्य आश्रौ १,३,१८×५.

आदिश्यमान- -ने हिश्रौ २, ३,
३२.

आदिष्ट,ष्टा- -ष्टः आपश्रौ ५, २५,
२०; भाश्रौ ७, २३, १३; वैश्रौ
१,१८:७; हिश्रौ ६,५,३२; निस्
९,१३ : १८; कप्र ३,४,९; विध
२२, ८७; -ष्टम् अप १ : ४;
-ष्टस्य हिश्रौ २, ३, ३३; पावा
४, १, १५८; २, ९१; ३, १५;
२३; -ष्टा लाश्रौ ८,९,५; १०,
१; निस् ८, ११ : ९; -ष्टान्
वैताश्रौ १, २; -ष्टानाम् कौसु
१७,१; ४६,४५; ५२,२०; ६१,
७; -ष्टानि बौश्रौ १४, ४ : २४;
-ष्टाम् आपश्रौ ९, १५, २१;
भाश्रौ ९, १८, ८; हिश्रौ १५,
४,४१; -ष्टासु कौसु १३६,१३;
-ष्टे निस् १०, २ : १३; १५ :
१२; -ष्टैः आश्रौ १२,३,८.

आदिष्ट-दक्षिणा- -गाः आश्रौ
९, ४, ८; बौश्रौ १२, १९ : ५;
-णाभिः भाश्रौ ५, १२, २२;

-णाम्यः आपश्रौ ५, २०, १३;
भाश्रौ ५, १३, १; -णासु शाश्रौ
१,१२,११.

आदिष्ट-देवत, ता^६- -तासु कौश्रु
१,६,३; शाश्रु १, ९, १८; -ते
भाश्रु १,४ : १४; हिश्रु १,७,२०.
आदिष्ट-दैवत^७- -तम् आमिश्रु १,
१,४ : २५.

आदिष्ट-रूप^८- -पाणि हिश्रौ ६,
५,१८.

आदिष्ट-स्थान,ना^९- -नाः बौश्रौ
१३,१ : ४; -नानि बौश्रौ २०,
१३ : १६.

आदिष्टा(ष्ट-अ)र्थ- -र्थम् पावा
६,२,५२.

आदिष्टो(ष्ट-उ)पयोजन^{१०}- -नानि
निघ १,१५; या २,२८.

आदेश- -शः निस् १० : ९, २६;
भाश्रु ३, ७ : ९; शौच १, ६३;
पा १,१,५६; पावा १, १, ५१;
५७; ८,२,९; -शम् आश्रौ २,
१६,१३; बौश्रौ २४, २९ : ८;
गोश्रु ४, ४, २३; -शस्य पावा
८,४,६८; -शाः आश्रौ १, १२,
१३; वाधूश्रौ ४, २१ : १; याशि
२,५७; पावा १,३,१०; -शात्
बौश्रौ १३, १ : ९×५; -शान्
आश्रौ ६, १४, २३; -शे शाश्रौ
३,७,८; माश्रु १,२३,२२; ऋप्रा
१६,५६; -शे पावा १,१,५०×५;
-शेन वाधूश्रौ ४, ८६^३ : १४;
९६ : २८; लाश्रौ ९, ७, १०;
शाश्रु २, ११, १३; कौश्रु २, ७,
१७; -शेषु पावा १,१,५; -शैः
वाधूश्रौ ४, ३२ : २७; ६६ : ६;

a) =सूर्य-ग्रहण-। षस.। b) =मन्त्र-। उप. करणे ल्युट् प्र.। c) नाप.। गस. उप. अधिकरणे ल्युट् प्र.।

d) वैप १ द्र.। e) सपा. आदिशः<>उदिशः इति पाभे.। f) वैप १,६४८ ङ द्र.। g) विप.।
बस.।

१०६ : ४.

आदेश-कारित^a - -तानि बौश्रौ
२४, ८ : १.आदेश-जाति- -सिः निसू २,
४ : २९; ९, १३ : २९.आदेश-स्व- -स्वात् पावा ६, ४,
१३०.आदेश-निमित्त-स्व- -स्वात्
पावा ३, २, १२४.आदेश-पद^b - -दम् आश्रौ ५,
४, ४.आदेश-प्रतिषेध- -धः पावा १,
१, ५७; २, १.आदेशप्रतिषेधा(ध-अ)र्थ-
-र्थम् पावा २, ४, ३२; ६, १,
६०; ८३; ८, २, ४२.आदेश-प्रत्यय- -ययोः पा, पावा
८, ३, ५९^c.आदेश-प्रसङ्ग- -ङ्गः पावा ८,
३, ३७.आदेश-लक्षण-प्रतिषेध- -धः
पावा १, १, ५७.आदेशलक्षणप्रतिषेधा(ध-अ)
र्थ- -र्थम् पावा ६, १, ८५.आदेश-वचन- -नम् पावा २,
४, ३२; ३, ४, २; ७, १, ३; ४, ९;-नात् पावा ३, २, १०७; ६, १,
१३; ८४; ७, १, ३३; -ने पावा
२, ४, ४९; ४, ३, २.आदेश-वर्ति(न् >)नी- -न्या
कप्र २, १०, ७.आदेश-संप्रत्यया(य-अ) र्थ-
-र्थम् पावा १, १, २१.आदेशा(श-अ)दि-स्व- -स्वात्
पावा ६, ४, १२०.

आदेशा(श-अ)नुपपत्ति- -सिः

पावा ३, २, १२४^d; ४, १, १५८;
२, ९१; ३, १५.°आदेशा(श-अ)पवाद- -दः पावा
२, ४, ८१.°आदेशा(श-अ)भाव- -वः पावा
१, ४, १.आदेशा(श-अ)र्थ, र्था- -र्थम् पावा
६, १, ६१; - र्था मीसू ६, ५, २७.आदेशिक^e - -कम् नाशि २,
२, ९.आदेशिन्- > °इया (शि-आ)
देश- -शे पावा १, १, ५६.आदेशो(श-उ)दीक्षण^f - -णम्
अप ४६, ८, १.आदेशन- -नम् आगृ ४, ८, २२;
-नात् गोगृ ३, २, ५३.आदेशन-विधि- -धिम् अप ४६,
१, १.आदेशम् आश्रौ १, ५, २९; ३, १,
२०; आदेशम्/आदेशम् आश्रौ
१, ३, ६.

आदेश्य- -इयम् अप ६८, २, ३१.

आ/दी(दीप्तौ), आ...अदीदेत् लुक्

१, ६ : १३^g.†आ(अदीदेत्) साअ २, ११२४^h;

उनिसू ७ : २७.

आ/दीप्, आदीप्येत अप्राय २, ५.

आदीपयते आमिगृ ३, ६, १ : १;

आदीपयति आपश्रौ ५, १३, ३;

बौश्रौ; आदीपयन्ति काश्रौ २५,
७, ३९; आदीपयेत अप ३७,
५, १.

आ-दीपन- -नम् माश्रौ ४, १, २२;

-नाय बौश्रौ ९, ३ : ३३; १०,
६ : १४.आ-दीप्त, सा- -सः आपश्रौ ६, ९, १^h;

या २, १३; -सम् वाधुश्रौ ३,

३१ : १; -सयोः कौसू ८७, २०;

-साः कौसू ३६, १४; -सायाम्

आपश्रौ ६, १०, ३; बौश्रौ; -से

कौसू २४, ६; ८१, ३४.

आ-दीप्य शाश्रौ २, ८, ९; काश्रौ.

आ-दीप्यमान- -नम् आमिगृ ३, ६,

१ : १ बौपि १, ८ : १; -नैः

आमिगृ ३, ६, २ : ८.

आ-दीप्यमान- आ/दा द्र.

†आदुरिⁱ - -रिः, -० रे या ६, ३१^h.

आ/दृ(आदरे), आद्रियन्ते वाध २,

११; या २, ४; आद्रियेत शाश्रौ

१३, १, ५; काश्रौ; या २, १; ७,

२३; आद्रियेरन् बौश्रौ १७, २३;

७; २५, १० : २२.

आ-दर- -रः कप्र २, १, १५; -रात्

जैश्रौका १९४; अप ६८, ५, २६;

-रेण उसू ८, ३६.

आदरा(र-अ)नादर- -रयोः पा
१, ४, ६३.आ-दरणⁱ - -णात् या ६, ३१.

आ-दरयितृ- -यिता या १०, ८.

आ-दृत- -तः जैश्रौका ३६; -ताः

विध ३१, ९^h.आदृत-ब्राह्मणो (ए-उ) क्ति^h-

-क्तिभिः जैश्रौका १७२.

आ-दृत्य- -त्यम् वाधुश्रौ ४, २४ :

४; २८ : १०; १०० : १३;

द्विश्रौ ३, ७, ७८.

आ/दृ, दृ(विदारणे), आदृषते या ११,

२१^hकृ; आ(आ-अ)दः ऋप्रा १,
८६^h.

आदृणाति या ४, ४; ११, २१.

आ/दृश्, आदृश्यासम् जैगृ १, १८ :

१३.

a) =कर्म-विशेष-। तृस. । b) =इन्द्रात्मक-पद-। c) =चौर-। तेनचरतीत्यर्थे ठक् प्र. । d) समाहारे
द्रस. । e) वैप १ द्र. । f) गस. उप. भाप. । वैप १, ६४८ j अपि द्र. । g) कस. > षस. ।

आदर्शयति निस् ६, ७ : १०.
 रभा-दर्श^० - शः गोष्ट २, ९, ४; जैष्ट
 १, १८ : १३^१; द्राष्ट २, ३, १७;
 - शंम् बौश्रौ १७, ३९ : ४; कौष्ट
 १, ८, ७; २१, ६; शांष्ट; - शै बौश्रौ
 १७, ४२ : ६^२; पाष्ट २, ६,
 २८; आमिष्ट; - शैन कौष्ट १,
 २१, ११; ४, २, ३; शांष्ट १,
 २८, १३; ४, १५, १२; जैष्ट
 १, ११ : १३; द्राष्ट २, ३,
 २५.
 आदर्श-जल-मध्य^० - गत-
 - तम् विध ७१, २०.
 आदर्श-खिम्ब- - म्बे विध ९९,
 १२.
 आदर्शा(श-आ) कृति^० - - ति
 काश्रौ १, ३, ४०.
 आदर्शा(श-अ) वेक्षण- - गम्
 आपष्ट १२, ११.
 आदर्शा(श-उ) पानह- - नहौ भाग
 २, १८ : ५.
 आ-दर्शन- > णीय- - यम् या ५,
 १३.
 आदेति^१ अप ४८, १६.
 आ-देव^० - - वः ऋप्रा २, ७६; उस्
 २, २२; - वम् ऋप्रा २, ७६;
 उस् २, ९.
 आ-देवन- आ/दिव् द्र.
 आ-देश- प्रष्ट. आ/दिश द्र.
 आ/दो(बन्धने) > रभा-दान-
 - नाभ्याम् माश्रौ २, ४, १, १०;
 - नेन कौस् १६, ६; अश्र ६,
 १०४^१.

आदान-सदान- - नानि कौस्
 १६, ६.
 आदाना(न-अ) वबाधन-हरण-
 - गानि वैश्रौ १४, ७ : १५;
 १७; ८ : २.
 आद्य- ✓ अद् द्र.
 आद्य- आ/दा द्र.
 आ/द्युत्, आ...द्योतते वैताश्रौ
 १४, १^१; अप्राय २, ७.
 आ-द्यून^० - - ने पा ५, २, ६७.
 आ/दु, आद्रवति वैश्रौ १५, ६ : १;
 हिश्रौ ८, १, ५९; आद्रवतः बौश्रौ
 १, २० : २; ५, ६ : ८; आद्रवन्ति
 बौश्रौ ७, १८ : १८ × ×; हिश्रौ ८,
 १, ६०; आद्रव आपश्रौ १,
 १९, ९ × ×; बौश्रौ; माश्रौ २,
 २, १, ११^१; आ(द्रव) वृदे ५,
 ११४; आद्रवत^१ आपश्रौ १२,
 ५, २; वैश्रौ १५, ५ : ६;
 हिश्रौ ८, १, ५८; आद्रवन्
 वाधूश्रौ ३, १९ : ८; आद्रवेत्
 बौश्रौ २५, ११ : ११ × ×;
 हिश्रौ; आद्रवेयुः वैश्रौ १५, ६ :
 २.
 आ-द्रवत् - - वन् वाधूश्रौ ३, १९ :
 ८^२.
 आ-द्रुत्य बौश्रौ १, ४ : २५ × ×.
 आधर्मिक- अधर्म- द्र.
 आधर्य- अधर- द्र.
 आ-धव- प्रष्ट. आ/धु, धू द्र.
 आ/घा, भाघत्ते बौश्रौ २, १२:
 १८ × ×; भाश्रौ; भादघाति
 शाश्रौ ८, ११, १५; काश्रौ; हिश्रौ

२, १, ३^१; या ७, २३; भाघत्तः
 आपश्रौ १२, २३, ३; बौश्रौ ५,
 ६ : ६; भादघते शाश्रौ ८, ८,
 ११; १८, २४, १४; भादघति
 काश्रौ ४, ८, ९; जैष्ट २, ४ : ८;
 भादघे आश्रौ ३, १२, २३;
 शाश्रौ; आ...दधे आश्रौ १,
 १२, ३६^१; आपश्रौ ९, २, १०;
 माश्रौ ३, १, २७; अप्राय ४,
 १; आदधामि आपश्रौ ५, ११,
 ७^१ × ×; बौश्रौ; आ...दधामि
 भाश्रौ ४, ९, २; आदधत् माश्रौ
 १, ६, ३, १६; कौस् ७०,
 ६^१; शांष्ट १, १९, ६; आ...
 दधत् आपश्रौ १६, ६, ७; वाश्रौ
 २, १, ५, २०; आ(दघात) आश्रौ
 ६, २, ५; आश्रौ ९, ६, १; १०,
 १३, १३; १२, ३, २३; १८, १५, ६;
 आदधालु वाश्रौ १, १, ४, ३५;
 ३, ४, ३, १; आमिष्ट; भाघत्ताम्
 आपमं १, १२, २ × ×; आष्ट;
 भादघाताम् वाधूश्रौ ३, २९ : २;
 ४, ३३ : ६; भाघत्स्व आपमं १,
 १२, ४; आमिष्ट १, ५, ५ : १५;
 आधेहि आश्रौ ६, २, ९; आपश्रौ;
 आपमं १, १२, ६^१; माष्ट २, १८,
 ४^१; आ...धेहि आपश्रौ ८,
 १४, २४; आ(धेहि) आश्रौ २,
 १०, ३; शाश्रौ ३, १६, २४; बौश्रौ
 २८, ३ : १०; माश्रौ ५, १, ४,
 १६; २, २, १८; वैश्रौ ९, ७ : ३;
 साश्र १, २३१; उनिस् ४ : २३;
 भाघत्ताम् माश्रौ १, ३, ४, २३;

a) = दर्पण- । गस. उप. अधिकरणे षञ् प्र. । b) विप. । द्रस. > षस. । c) विप. । बस. ।

d) अर्थः व्यु. च ? । e) वैप १, ६४९ d द्र. । f) भाप., नाप. (पाश-) । भावकरणयोः कृत् । g) = औदरिक- । व्यु. ?
 < आ/दिव् [अविजिगीषायाम्] इति (तु. पा ८, २, ४९) । h) पाभे. वैप २, ३४. एहि माश ३, ४, ३, २२ टि. द्र. ।
 i) पाभे. वैप २, ३४. एतु माश ३, ९, ३, १६ टि. द्र. । j) पाभे. पृ ३२६ m द्र. । k) 'वदे इति आन. । l) पाभे.
 वैप १, ६५० j द्र. । m) पाभे. वैप १, ६५० i द्र. । n) पाभे. वैप १, ६५१ b द्र. ।

वाश्रौ; ऋभाघत्^a आश्रौ २,७, १३; शांश्रौ ४, ५, ८; काश्रौ ४, १, २२; आपश्रौ १, १०, ११; भाश्रौ १, १०, १०; माश्रौ १, १, २, ३१; वाश्रौ १, २, ३, ३६; हिश्रौ २, ७, ६०; वैश्र ४, ६ : १३; द्राश्र ३, ५, ३०; कौश्र ८९, ६; शंघ २८६; शुश्र १, १६१; ऋभादधानि वाश्रौ १, १, ५, ५; ४, ३, १; २.

ऋभा(आ-अ)दघात् आश्र १, १, ४; शांश्र १, १९, ६; आश्रिण् २, ५, ३ : २०; बौश्र ३, ७, १६; आ- (आ-अ)दघत् वाघूश्रौ ३, १७ : १०^२; १२; १३; आदधीत् आश्रौ २, १, १२; १४××; शांश्रौ; ऋभा(दधीत्)^b आश्रौ ७, ११, २२; ऋश्र २, ५, ६६; आद-धीय माश्रौ ५, १, ५, ४४; आदध्यात् आश्रौ २, ३, १५ ××; आपश्रौ; आदधीयाताम् आपश्रौ ५, ४, १०; भाश्रौ ५, २, २२; आदध्नुः द्राश्रौ ६, ४, ११ ××; लाश्रौ.

ऋभादधे आश्रिण् ३, ८, २ : ११; ५०; आ^cदधिरे ऋश्र २, ४४^१; ऋभादधुः बौश्रौ ११, ६ : २३; वैताश्रौ; माश्र १, २१, ८^०; आ-ऋभास्थे बौश्रौ २, १ : १२; वैश्रौ १, ४ : ६; आश्रास्यामः भाश्रौ ५, १, १; आश्रात् माश्रौ २, ५, ४, २४; या ४, २१^१; ऋभाधाः शांश्रौ १०, १४, ६; बौश्रौ १३, ३८ : ४; जैश्रौ १९ : ४; आ^d

घाः शांश्रौ १०, १४, ६^१।
 आधीयते आपश्रौ ९, ६, १२;
 वैश्रौ २०, १२ : २; हिश्रौ ३, ६, २८; १५, २, १८; आधीयन्ते
 आपश्रौ ६, १३, ९; ऋभाधीयताम्
 आपश्रौ ५, ९, ८; बौश्रौ; आधी-
 यस्व काश्र ४६, ७^१.
 ऋभा^eअघायि बौश्रौ ७, ३ : १;
 हिश्रौ ८, १, ५७.
 आघापयति बौश्रौ १, १२ :
 २५ ××.
 आ-दघत्- -घत् काश्रौ ९, १, १०;
 आपश्रौ.
 आ-दधान,ना- -नः काठश्रौ १६;
 बौश्रौ ३, ३ : १५^e××; वाश्रौ;
 -नस्य आपश्रौ ५, २४, ९; बौश्रौ;
 -ना पाश्र २, २, ८^१; -नेन
 आपश्रौ ५, ७, ५; वाघूश्रौ ३,
 १७ : २०.
 आ-घातुम् वैश्रौ १, ६ : १४.
 आ-घातृ- -तृणाम् बौश्रौ २२, १९ : ६.
 आ-घान- -नम् आश्रौ २, ३, २५;
 काश्रौ; -नस्य काश्रौ ७, १, ३;
 मीसू; -नात् आश्रौ २, १, ३५××;
 आपश्रौ; -नानि आपश्रौ ५, ११,
 ७; -ने काश्रौ १, १, ९; बौश्रौ;
 पावा ४, ३, १२०; -नेन आपश्रौ
 ५, ११, ६××; भाश्रौ; -नेषु
 आपश्रौ ५, १६, २.
 आघान-कल्प- -ल्पः आपश्रौ ९,
 ६, १३; वैश्रौ २०, १२ : २; हिश्रौ
 १५, २, १९.
 आघान-काल- -लः हिश्रौ ३,
 २, २२; -लाः कप्र १, ६, १.

आघान-क्रम- -मेण वैश्र ५, २ :
 २५.
 आघान-नक्षत्र- -त्रे वैश्र ३,
 २१ : ५.
 आघान-प्रभृति- -ति आपश्रौ
 २४, १, २८; बौश्रौ २०, १९ :
 २४^१; २७; २३, १ : १९; हिश्रौ
 १, १, ६४; ३, ६, २८; ६, ५, १९;
 हिमि २१ : १२; बौध २, १०,
 ४६^१.
 आघान-मन्त्र- -न्त्रान् वाश्रौ १,
 ४, २, २१; ३, २.
 आघान-वत् वैश्रौ १, १४ : २;
 मीसू १०, ६, ५३.
 आघान-विशेष- -षः वैध १, ६,
 ४; -षम् वैश्र १, ८ : १५.
 आघान-वेला- -लायाम् भाश्रौ
 ६, १, २; माश्रौ ५, १, ३, १५.
 आघान-सोम- -मयोः जैश्रौ का
 १५.
 आघाना(न-आ)दि-कर्मन्-
 -मेणाम् बौध ४, ७, १०.
 आघाना(न-आद्य>)द्या^f- -द्याः
 अय २२, १, ३.
 आघाना(न-अ)नुपूर्व- -व्ण
 वाश्रौ १, ४, १, २५.
 आघाना(न-अ)प्रतिज्ञात^h-
 -तस्य काश्रौ ४, ११, १.
 आघानो(न-उ)त्तरकाल- -ले
 मीसू ६, ८, १५.
 आ-घाप्य आपश्र १०, ९.
 आ-घाय आश्रौ २, ३, १६××; शांश्रौ;
 आघायऽआघाय भाश्रौ ५, ५,
 १२.

a) पामे. वैप १ परि. आघत्त मा २, ३३ टि. द्र. । b) वैप १, ६५१ j द्र. । c) पामे. वैप २, ३४. आदघात् तैत्रा २, ७, १७, २ टि. द्र. । d) पाठः ? आघ इति शोधः (तु. वैप १, ६५२ k, परि. च) । e) तु. संस्कृतः शोधप्रम् । f) पामे. वैप २, ३४. आहरन्ती मंत्रा १, ६, २७ टि. द्र. । g) विप. । बस. । h) विप. । तुस. उप. अक्षप्रसिद्ध- ।

आ-धास्यत्-स्यन् आश्रौ ५,७,४;
आपश्रौ.

आ-धास्यमान-नः आपश्रौ ५,७,
१५; बौश्रौ; -नम् बौश्रौ २,
१५ : २०; वैताश्रौ ५,७; -नस्य
हिश्रौ ३, २, १; द्राश्रौ १२, १,
२१; लाश्रौ ४,९,१५; -ने माश्रौ
१,५,३,८; ३, ३, १; हिश्रौ ३,
२,६२.

१आ-धि-धि-धिः वाध १६, १८;
विध ५,१८४; -धिम बौश्रौ २२,
७:१७^०; विध ६,६;८; आपध १,
१८,२०; हिध १,५,२९.

आधु(धि-उ)पमोग-ने विध
६,५.

आ-धित-नः आपमं १,९,२०.

आ-धित्सत्-स्सन् निस् १०,१३ :
४.

आ-धित्सु-त्सुः अप ६९,४,५.

आ-धीयमान,ना-नः बौश्रौ २,
१७ : १५; -नम् आपश्रौ ५,
१२, ३ ××; भाश्रौ; -नाः
वैताश्रौ २८,१४; २२; २९,१५;
१८; -नाम् आपश्रौ ४,११,५;
वैश्रौ ७, ३ : १३; हिश्रौ ६, ३,
८; -ने शाश्रौ ५,१३,६; वाश्रौ.

आ-धेय,या-यः आपश्रौ ५, ३,
१७; ४,४; ६,२,६; भाश्रौ ५,
२,१५××; आमिष्ट; -यम् शाश्रौ
२, ५, १; काश्रौ २५, ३, २५;
वौश्रौ; -याः आपश्रौ ५,७,५.

आ-हित,ता-नः आपश्रौ ५, ७,
८ ××; बौश्रौ; माष्ट १,१४,८^{१०};
-तम् काश्रौ २२,६,१५; आपश्रौ

१६,३,११^०××; बौश्रौ; -तम्-
तम् भाश्रौ ५,१९, ११; -तयोः
जैश्रौका २७; -तस्य आपश्रौ
५, १४, १४; बौश्रौ २, १७ :
३१; २०,१७ : ७; भाश्रौ ५,८,
१३; वैश्रौ १, १३ : १; हिश्रौ
३,४,३३; -तत् आपश्रौ १७,
२१,८; हिश्रौ १२,६,२६; -ताः
आपश्रौ ६, २, ५; ५, ४; १३,
१२; २४,१,२२; -तात् वाश्रौ
३, ३, ३, १९; पा ८, ४, ८^१;
-तान् वाश्रौ १, १,३,१८; ५, १,
९; गौपि १,१,१५; -ताम् वाश्रौ
१,१,५, २०; -तायाम् आपश्रौ
४,११,५; भाश्रौ ४,१७,२; वाश्रौ
२,२,४,२; -तायै बौश्रौ २४,
३१ : ६६; -तासु हिश्रौ ६, ५,
४; अप्राय ४, ३; -ते आपश्रौ
१८,१७, १५; काठश्रौ १२४;
वैश्रौ १, १३ : ९; हिश्रौ १३,
६, २५; १४,३,४५; -तेषु माश्रौ
१,६,५,१; वाधूश्रौ ३, ११ : १;
वैश्रौ १,१९ : १.

आहित-मानस^१-०साः अप
७०,१,३^१.

आहित-समि(धु>)स्क^१-स्कः
कौस् ५६,८.

१आहिता(त-अ)मि^१-> ०न्या-
(गिन-आ)दि-दि वैष्ट ३,१९ :
८.

२आहिता(त-अ)गिन^१-पाग २,
२,३७; -ननयः आश्रौ ४,१,८;
शाश्रौ १३,१४,१; १८,२४,२७;
द्राश्रौ ११,४,२०; लाश्रौ ४, ४,

१९; -ननये विध ८७,६; -गिन-
आश्रौ २, २, ७; ३, ११; २४;
३,१०,१८; शाश्रौ २, ३, २६;
काश्रौ २४, ६, ३४; ऋआपश्रौ
६,१९,६; २९, २; ९, ४, १५;
११,२२; १४, ६; ऋबौश्रौ २,
७ : २७; १३, ३ : ५; ४३ :
१७; १४, १९ : १०; १८,
८ : ११; १६ : ७; ४० : १९;
२३, १ : १९; २४, २१ : ६;
भाश्रौ ५,१७, ५; ७, २३, ११;
९,६,१०; १२; वाधूश्रौ ३, ४ :
७; ११ : ३; वैश्रौ २०, २२ :
१०; हिश्रौ १५,१, ८४^३; ८५;
४,१३; द्राश्रौ ७, २, १; लाश्रौ
३,२,१; १०,१८,१४; १९, ३;
आष्ट ४,१,१; आमिष्ट ३,४,१ :
२२; ३ : १; ५,१ : १; ६,२ : ८;
१३; बौष्ट ३,५,३; बौपि १,१ :
१^१; ९ : १६; ३,१,१४; ८, १;
वाष्ट १,६; वैष्ट १, १ : १५; ५,
३ : १६; १२ : ५; ७, २ : १;
हिपि २१ : ११; २३ : ४; ५;
१२; १३; १५; १६; १८;
गौपि १,१, ३२; २, २५; ३६;
अप्राय २, ८; ३, ७; ५, ४;
अप १,६, २; वाध ४, ३७; ६,
२१,९, १०; शंघ १५२; ४६०;
आपध २, ९, १३; बौध ३, १,
११; २, ७, २३; वैध १, ६, २;
२,५,६; हिध २, १, १२८; काध
२७० : २; - गिनना बौश्रौ २६,
२९; ४; ५; -मिम भाश्रौ ७, २३,
९; द्राश्रौ ७, ४, ७; लाश्रौ ३, ४, ६.

a) वैप १ द्र. ।

b) =इष्टका-विशेष- ।

c) पामे. वैप १, ६५३ e द्र. ।

d) सपा.०हितम् <>सञ्चम् इति पामे. ।

e) पामे. वैप १, ६९९ f द्र. ।

f) =आधीयमान-

वस्तु- । g) =गर्मिणी-गो- ।

h) विप. । बस. ।

i) षः इति पाठः? यनि. श्लोकः १

j) क्त. ।

कौट ५,१,४; आमिष्ट ३,६,२ :
२००; ७,४ : २१; ९,३ : २१०;
बौपि १,१० : १५०; २,४,५,७,
१८; ३,१,९; हिपि २१ : १३०;
२२:८; ११; २३:१७; कौसू ४८,
२७; ८१,४५; आपध २,७,१३;
हिध २,२,३२; -मी काठश्रौ १५;
कागुड ४० : ११; -ग्ने: काश्रौ
२५,४,२८; आपश्रौ ५,२५,१५;
९,१,१७; ३, १८; १४,१५,५;
बौश्रौ १४, २४ : ३७; २६,९ :
४; २९, १० : ६; भाश्रौ ९, १,
१७; ४,५; ५,६; ९; माश्रौ ३,
४,६०; वैश्रौ २,१६ : १; १८:२;
२०, २ : ३; १३; ७ : ८; हिश्रौ
१०,७, २७; १५, १, ५१; ६५;
निसू २,५ : २०; आगू २,२,४०;
कौट १,९,१३; शांगू १,१५,९;
पागू ३,१०,१०; आमिष्ट २, ७,
९ : २; ३,४,१ : १; ७, ३ : १;
बौपि २, १, १; भागू ३,
१८ : ४०; वैगू ५, १ : १; ७,
१ : १३; ७ : २; गोगू १, ६,
११; ८,२२; २४; हिपि १ : २;
१०; जैगू २,४ : १; ५ : १; द्रागू
२, २, २; कप्र २, १०, १४; ३,
४,१; कौसू ८१, १; ८९, १५;
अप्राय ५, ४; वाध २५, २;
वैध ३, ८, ४; -ग्नी कौसू ८०,
६; वैश्रौ ४, ६ : १६; -ग्न्यो:
बौश्रौ २९, ९ : २; आमिष्ट ३,
७, ४ : २२; बौपि २, ४, ५.

आहिताग्नि-गृह- -हेषु अप
२३,९,१.

आहिताग्नि-त्व- -त्वम् हिगू

१, २६, ३.

आहिताग्नि-मन्त्र- -न्त्रैः
वैध ३, ८, ४.

आहिताग्नि-वृत्ति- -त्तिम्
लाश्रौ १०, १८, ११.

आहिताग्नि-व्रत- -तानि
आपश्रौ ५, २५, २; भाश्रौ ५, १६,
११.

आहिताग्न्या(ग्नि-आ)वृत्-
-वृता काश्रौ २५, १४, १.

आ-धातुम् प्रगू. आ/धा द्र.

आ-धार- आ/धृ द्र.

†आ/धाव् (गतौ), आ/धावति
आश्रौ २, १२, ४; ५, १२, १५^२;
शाश्रौ ७, १५, ८; बौश्रौ २८, १ :
२२; २ : २७; वैश्रौ २०, ३३ :
११^{१०}; आधावन्तु बौश्रौ ७, ६ :
९; आधाव शाश्रौ ६, ७, १०^८;
आपश्रौ १, १९, ९; आधाव-
(त>)ता ऋषा ८, २९.

आ-धावत्- -वतः वैश्रौ १७, १४ :
१; हिश्रौ १३, १, ५२; ५६;
-वस्तु द्राश्रौ १५, ४, ९; लाश्रौ
५, १२, १६.

आ-धाव- आ/धु, धू द्र.

आ-धास्यत्-, -स्यमान-, १आ-धि-
आ/धा द्र.

२आ-धि^१- -धयः बौगू ३, ५, ८; वैगू
१, १८ : १२०; -धिना निसू
९, १० : २७; -†धिम् आपश्रौ
२०, ८, ६; ११, ११; बौश्रौ
१५, १३ : ५; १९ : १४;
हिश्रौ १४, २, २६.

आधिकारिक- अधि/कृ द्र.

आधिक्य- अधि-क- द्र.

आधिदैविक- १अधि-देव- द्र.

आधिपत्य- अधि-पति- द्र.

आधिभौतिक- अधि-भूत- द्र.

आधिवेदनिक- अधि/विद् (लाभे)
द्र.

आ/धी (चिन्तायाम्)>आ-धीत-
-तम् आश्रौ ८, १३, ९; शाश्रौ
१०, १४, ४; हिश्रौ १०, २, ६५^१;
आपमं १, १०, ९; वैगू ५, ४ : ५;
शुभ्र ३, २१६; या १, ६०^१;
-तात् वाधुश्रौ ४, २९ : ३;
-†ताय आपश्रौ २०, ८, ६; ११,
११; बौश्रौ १५, १३ : ५; १९ :
१४; हिश्रौ १४, २, २६; -ते
जैश्रौका २६.

आधीत-यजुस्^६- -जुभ्यः माश्रौ
६, १, ३, १९; -जुषाम् वाधुश्रौ
३, ७८ : २; -जूषि माश्रौ २,
१, २, १; चाश्र १६ : ८.

आ-धीति- -तिः आपमं १, १०, ९;
-तौ वाश्रौ ३, २, ५, ७.

†आ-धी^१- -धीः काश्रौ १३, ३, २६^६;
-धयः या ४, ६.

आ/धु, धू, आधुनुते आपश्रौ २१,
६, १९^१; आमिष्ट २, ५, १० :
३२; आधुनोति काश्रौ १२, ५,
१९; आपश्रौ; †आधुनोमि
बौश्रौ १४, १२ : ९; १०; वाश्रौ
३, २, ५, ४; वैश्रौ १५, १० : ३;
हिश्रौ ८, ३, ३८; आधुनुयात्
बौश्रौ २३, ६ : १; ८ : २९;
आधुनुयात् बौश्रौ १४, २९ :
९.

†आ-धव^१- -वः निघ ४, ३; या
६, २९^१; -वम् या ६, २९.

a) षस. उप. भाप. । b) ज्या...इति पाठः ? यनि. शोधः (तु. ऋ ९, १७, ४. बौश्रौ २८, १ : २२) ।

c) पाभे. वैप २, ३३. सोट- > -ता ऐवा २, २० टि. द्र. । d) वैप १ द्र. । e) =यजुर्-विशेष- । कस. । f) =२आ-
धि- । व्यु. ? । g) पाभे. पृ ३२८ पृ द्र. । h) सप्र. आधुनुते <> धुनुते इति पाभे. ।

१आ-धवन^०- -नात् या ६, २९;
-ने बौश्रौ २३, ६ : १.
‡आधवनीय^०- -यः बौश्रौ १४,
६ : १३; जैश्रौ १८ : ९; -यम्
काश्रौ ९, २, २१; आपश्रौ; -यात्
काश्रौ ९, ५. १५××; आपश्रौ;
-ये काश्रौ ९, ३, १८××; आपश्रौ;
अप्राय ३, ३^०.
आधवनीय-पूतभृत्- -भृतौ
काठश्रौ ११९; वाधूश्रौ ४, ७४ :
११.
२आ-धवन^०- -नान् आपश्रौ १२,
८, ४; वैश्रौ १५, ११ : १.
आ-धाव^०- -वम् वैश्रौ १, १० : १;
२० : १; १४; २, १८ : ७; १०;
४, ११ : १५; -वे वैश्रौ ४, ११ :
३; -वेन आपश्रौ^१ २१, ६, १७;
१९; बौश्रौ १६, ३ : २२^१; हिश्रौ
१६^१, ३, १८; १९; वैश्रौ १, २० :
११; -त्रैः बौश्रौ १४, १२ : ९^१;
वैश्रौ १, ५ : ३; २, १३ : ९; ४,
११ : १; १२ : २.
आ-धूनवान- -नः आपश्रौ ९, ११,
२४; १४, ३१, १.
आ-धूय काश्रौ ९, ५, ६.
आ/धूप, आधूपयतु बौश्रौ ९, ३ :
२७^१.
आ/धू>आ-धार- पा ३, ३, १२२;
-रः या १, १३; १४; पा १, ४,
४५; आज्यो १३, ११; -रम्
हिश्रौ २, २, २७; बृदे ८, १३९;

-रे मीस् १२, ३, २८.
आधार-दोष- -वे शंघ १८१.
आधार-समिध- -मिधम् वैश्रौ ५,
७ १^१; -मिधौ हिश्रौ १, ८, ९^१.
आ-धृत->^०त-व्रत^१- -तः अप ६९,
८, १.
‡आ/धृष्, आदधर्षति काश्रौ ४५, ११.
आदधृषते अत्र ६, ३५^१.
‡आदधर्षया^१ शाश्रौ १८, ३, २^१.
‡आ-धृषे^० शाश्रौ १८, ३, २^१; अत्र ६,
३३^१.
आ/धे (पाने), आधापयति हिश्रौ २,
४, ३; कौस् ७५, २४.
आ-धेय- आ/धा द.
‡आधेया वाश्रौ १, ४, ३, २३.
आ/ध्मा, आध्मायात् वाधूश्रौ ४,
६९ : ५.
आध्यद्विव-, ^०द्वीय- अर्धयत्न- द.
आध्यात्मिक- अध्यात्म- द.
आ/ध्यै, आध्यायति बौश्रौ १८, २ :
१४.
आ-ध्यात- -तम् या १, ६.
आ-ध्यान->^०नीय- -यम् या ५, १.
‡आध्^०- -धः आपमं १, १४, २; या
१२, १४; अप्रा ३, ४, १.
आध्वरा-, ^०रायण-, ^०रिक्-, ^०ध्वर्यव-
अध्वर- द.
आ/ध्वस्>आ-ध्वस्त- -स्तम् या
४, ३.
‡आनः^१ हिश्रौ १६, ६, १५.
आनक^१- पाग ४, २, ८०^०.

आनक-स्थ(ल>)ली- (>आ-
नकस्थलक- पा.) पाग ४, २,
१२७.
आनकायनि^०- पा ४, २, ८०.
आ-नख^०- -खम् वैश्रौ २, ५ : ९.
आनङ्गि- २अनङ्ग- द.
आनङ्गुह- प्रभृ. अनस्- द.
आनन्तर्य- अनन्तर- द.
आनन्त्य- अनन्त- द.
आ/नन्द>आ-नन्द^१- पाग ४, १,
४१; -न्दः शाश्रौ ३, १८, १४^१;
आमिग १, ५, १ : ९^१; अप ६८,
५, १३; -‡न्दम् आपश्रौ ५, १८,
२; हिश्रौ; -न्दाः भाशि ११३;
-‡न्दाय आपश्रौ १९, ७, ५;
वाश्रौ ३, २, ७, ६७; हिश्रौ २३,
१, २६; हिपि १२ : ३; -
अप ६२, ४, ४.
आनन्दी- पा ४, १, ४१.
आनन्द-शायि(न्>)नी- -नी
वैश्रौ ३, १९ : ११.
आ-नन्दिन्- -न्दिनः बौश्रौ १८,
२९ : १९; २१; ‡कौस् ४०,
१३; ७०, १.
आनभिस्तान- अनभिस्तान- द.
आ/नम्, आनभ्येत मीस् १०, २,
२५^१.
आ-नत- -तम् या ३, ९.
आनत-रोहिन्^१- पाग ६, २, ८१.
आनतो(त-उ)पनत- -तः,
-तानि वाधूश्रौ ४, ६४^१ : ५.

a) उप. भावे. कृत् । b) वैप १ द. । c) ^०ध्वा इति पाठः? यनि. शोघः (तु. सप्र. काठ ३४, १६) ।
d) विप. (अंशु-) । गस. उप. करणे ह्युद् प्र. । e) =जल- । गस. उप. घञ् प्र. । f) =वात- (तु. C.) ।
g) =मन्त्र-विशेष- । वैप १, ६५५ आ-धा(व>)वा- इति प्राति. टि. च शोघे भवतः । h) पाठः? आधार^० इति
शोघः (तु. सप्र. आपश्रौ २, ९, ९) । i) विप. । बस. । j) स्वरूपम्? । k) पाभे. वैप १, ६५५
h द. । l) वैप १, ६५५ k द. । m) तु. टि. ?मानः । n) अर्थः व्यु. च? । o) तु. भारुहा. ।
आकन- इति पासि. [पक्षे], पागम. । p) =देश-विशेष-? । q) अस. वा. क्वि. । r) भाप., नाप. । s) तु.
प्रयासं. । t) तु. पासि. ।

आ-नति- -तिः गौष ४, ११; -तौ
हिश्रौ १०, २, २३.
आ-नमन-> णा(न-ञ्)र्थ-त्व-
-त्वात् मीस् १०, २, ३२.
आ-नमस्कार^१- नम् आमिष्ट २, ३,
२ : १४.
? आनमून वाधूश्रौ ३, ८३, ३.
आनर्त^२- पाग ४, २, १२७^०; -र्तस्य
अप ६०, १, ४.
आनर्तक- पा ४, २, १२७.
आनर्त-गच्छ-यनत्- -तान् अप ५६,
१, ७.
आनर्थक्य- अनर्थक- द्र.
आनवकाश्य- अनवकाश- द्र.
†आ/नञ् (व्याप्तौ), आ(आनट्)बौश्रौ
१३, ५ : १४; शुश्र ३, १६८;
१६९.
आनशब्धे प्रस्य. √अंश् द्र.
आनस- अनस्- द्र.
आ/नह्> आ-नह- -हम् या ११,
४७.
आनिचेय^३- (>आनिचेयी- पा.)
पाग ४, १, ७३.
आनिधेय (>आनिधेयी- पा.) पाग
४, १, ७३.
†आ-नि/ष (<स)द्, आ...निषीद^४
आश्रौ २, १४, ३१; शाश्रौ १,
१७, १४; १९; आ...निषीदत्^५
गौपि २, ३, ४; अप ४४, २, १०.
आनिष्टि- ३अनिष्ट- द्र.
आ/नी, आनयते आपश्रौ ६, १४, ७;
भाश्रौ २, १६, ९; कौस् २४, ४१;
आनयति काश्रौ २, ५, १२ x x;
आपश्रौ; आनयन्ति आपश्रौ २०,

३, ६ x x; बौश्रौ; आनयसि अप
३५, १, २; †आनयात्^६ आपमं
२, २२, १०; भाग २, २७ : ५;
आनयतु जैगृ १, १९ : ३१†;
†आ...नयतु अप ४६, ४, १;
५, २; आनय काश्रौ ४, ८, २२†;
आपश्रौ; †आनयत् शाश्रौ १८,
७, १८; ऋश्र २, ६, ४५; वृदे
५, १०८; आनयेत् आपश्रौ १५,
१४, १२; काश्रौसं; पाग ३, ७, ३†;
आनयेयुः बौश्रौ २०, ३० : २३;
हिश्रौ १७, ७, २९; लाश्रौ २, ७,
१३.
आनिन्यतुः वाधूश्रौ ४, ७५ :
२८.
आनीयते या ४, १५.
आनयत्- -यन् बौश्रौ १, ४ : २१;
५, ४ : १२; बौपि २, ९, ५; ११,
२; -यन्तम् बौश्रौ १, ३ : २०;
२२; २३.
आ-नयन- नम् काश्रौ २५, ५, २२;
आपश्रौ १५, १०, ४; भाश्रौ ११,
१०, १.
आनयना(न-ञ्)दि- -दीनि वैश्रौ
१४, १० : ११.
आ-नयित्वा बौध ३, ३, ५-७.
आ-नाय- पा ३, ३, १२४.
आनाय-रज्जु- -ज्जू वाधूश्रौ ३,
६९ : ४१.
आ-नाय्य^७- पा ३, १, १२७.
आ-नीत्, ता- -तः आपश्रौ ९, १४,
६; हिश्रौ १५, ४, १३; सु २९,
२; -तम् काश्रौसं ३५ : २; या
३, ९; १९; -ता काश्रौ ८, ३,

२८; -ताम् अप ३९, १, ७;
-ते शाश्रौ १३, २, १; जैश्रौका
१६५.
आ-नीत्वा वृदे ५, १८.
आ-नीय आश्रौ २, २, १ x x; शाश्रौ.
आ-नीयमान, ता- -नम् कौगृ ५,
२, ६; बौगृ १, २, २८; कौस् ६४,
६; -ना हिश्रौ ७, ८, ११; -नाः
बौश्रौ १, ९ : ६; २०, ८ : ३१;
-नाम् हिगृ १, १९, ४; -नायाम्
आपश्रौ ४, १४, ३ x x; वैश्रौ;
-नासु हिश्रौ ६, ४, १३; -ने
आपश्रौ ३, १०, ८; बौश्रौ; भाश्रौ
१, १३, ११^८; -नौ बौश्रौ ६, १५;
२७.
आ-नेतवै वाधूश्रौ ४, ७५ : २१;
३३.
आ-नेय- -यानि माश्रौ १, ६, ३, १.
आ-नेप्यत्- -ष्यन् काश्रौ ५, ५, ५;
१४, ५, ३.
आनीकवत्- अनीकवत्- द्र.
आनीषायण^९- -णाः बौश्रौप्र २७ :
८.
आ/नु, नू^१, आ...अनूपत् शाश्रौ ७,
१५, ८†.
आनुकल्पिक- २अनु-कल्प- द्र.
आनुकूलिक-, °कूल्य- अनु-कूल- द्र.
आनुगङ्ग्य- अनु-गङ्ग- द्र.
आनुगतिक- अनु/गच्छ, गम् द्र.
आनुगादिक- अनु/गद् द्र.
आनुगुणिक- अनु-गुण- द्र.
आनुग्रामिक- अनु-ग्राम- द्र.
आनुचर्य-, °चारक- अनु/चर् द्र.
आनुजावर- अनु-जावर- द्र.

a) अस. वा. क्वि. । b) =देशविशेष- । c) भाण्डा. [पक्षे] आनत- इति । d) व्यप. । व्यु. ? । <आ-नि
√चि इति वाच. । e) पाभे. वैप १, ६५७ द्र. । f) सपा. आनयात्<>आनयेत्<>उदाजतु इति पाभे. ।
g) =दक्षिणामि- । h) पाठः ? णे विप्रुषः इति द्वि-पदः शोधः (तु. ४र्थ सूत्रम्) । i) =ऋषि-विशेष- ।
व्यु. ? । j) पावा १, ३, २१ परामृष्टः द्र. ।

भानुति-^a(> भानुतायन- पा.) पाग
२,४,६१^b.
भानुतिल्य- अनु-तिल- द.
आ(आ-अ)नु^cदी (दीप्तौ), भानुदी-
दिहि सु ६, १.
भानुदृष्टिनेय- , °दृष्टेय- अनु-दृष्टि- द.
भानुदेशिक- १अनु^cदिश् द.
भानुनाश्य- अनुनाश- द.
भानुनासिक्य- अनु-नासिक- द.
भानुपथ्य- १अनु-पथ- द.
भानुपत्रिक- , °पथ- १अनु-पद- द.
भानुपूर्व, °वी-, °व्य- अनु-पूर्व- द.
भानुमत- अनु^cमन् द.
भानुमति- (> भानुमतायन-)
भानुति- टि. द.
भानुमानिक- , °की- अनु^cमा(माने)द.
भानुमाष्य- अनु-माष- द.
भानुयव्य- अनु-यव- द.
भानुयाजिक- प्रभृ. अनु^cयज् द.
भानुयूप्य- अनु-यूप- द.
भानुरोहति^a- (> भानुरोहतायन-
पा.) पाग २,४,६१.
भानुरोहिणी-, °हित्य- १अनु-
रोहित- द.
भानुलोमिक-, °म्य- अनु-लोम- द.
भानुवंश्य- अनु-वंश- द.
भानुवारक- अनु^cवृ (संभक्तौ) द.
भानुशाल, षण्ड- अनु-षण्ड- द.
भानुशतिक- अनु-शतिक- द.
भानुशू, षूक- अनु^cषू (प्राणि प्रसवे)
द.
भानुषज्- अनु^cषज्- द.
भानुष्टुभ- प्रभृ. अनु^cष्टुभ् द.
भानुसांचरणिक- अनु-सं^cचर् द.

भानुसांवत्सरिक- अनु-संवत्सर- द.
भानुसांचरण- अनु-सं^cचर्(वरणे) द.
भानुसाय्य- अनुसाय- द.
भानुसीत्य- अनु-सीत- द.
भानुसीर्य- अनु-सीर- द.
भानुसुक- अनु-सू- द.
भानुसृति, ष्टिनेय- अनु-सृ, ष्टिति-
द.
भानुहारतायन-, °रति- अनुहरत्- द.
भानुहौडिक- अनुहोड- द.
भानूप-, °पक- अनुप- द.
भानूयाजिक-, °की- अनु^cयज् द.
भानुक्षरायण- १अनुक्षर- द.
आ^cनृत > आ-नृत्यत्- स्यतः अत्र
४,३०^फ.
१अनृत- अनृत- द.
२अनृत- (> भानुतक- पा.) पाग
४, २, ५३^०.
भानुशंस- प्रभृ. अनुशंस- द.
आ-नेय-, °नेयत्- आ^cनी द.
भानैषुर्य- अ-निपुण- द.
भानैश्वर्य- अनीश्वर- द.
भानोभद्रीय^d- -यम् शांश्रौ ११, १५,
९; -यस्य शांश्रौ १५, ३, १;
-यात् शांश्रौ १०, १३, १८; -ये
शांश्रौ १८, २२, ८.
आ(आ-अ)न्त^e- -न्तम् आपश्रौ ७,
११, ९; ११, १०, ४^२; बौश्रौ
२, ८ : १५; ४, ४ : २५^३, ३९;
६, २७ : १२××; वाश्रौ; -न्तात्
शांश्रौ ३, १, ९.
भान्तजनायन- अन्त- द.
भान्तरतम्य- अन्तर- द.
भान्तरिक्ष- अन्तरिक्ष- द.

भान्तरीपक- अन्तरीप- द.
भान्तर्य- अन्तर- द.
१आन्त्र- प्रभृ. अन्त्र- द.
२आन्त्र^f- पाउना ४, १७४.
भान्दोल^g- (> भान्दोलित- पा.)
पाग ५, २, ३६.
भान्धीगव- अन्धीगु- द.
भान्ध्य- १अन्ध- द.
भान्ध्र- अन्ध्र- द.
आभ्र- ^cअद् द.
भान्यतरेय- २अन्यतर- द.
भान्यभाव्य- अन्य- द.
भान्वजतायन- अन्वजत्- द.
भान्वीक्षिकी- अन्वी(नु^cई)क्ष द.
भान्वीपिक- अन्वीप- द.
^cआप्^h पाधा. स्त्रा. पर. व्याप्तौ;
चुरा. उभ. लम्भने, आमोति
शांश्रौ १४, २, ९××; आपश्रौ;
या ३, ११; आप्नुतः वाधुश्रौ
३, २७ : ८; ४, ३३ : २३;
शंथ ३८९; आप्नुवन्ति आश्रौ
१०, ५, १६; बौश्रौ; या १,
२०; १०, २१; आमवानि शांश्रौ
४, ८, ६^फ××; आमोत् शांश्रौ
१४, ८, १××; आप्नुवन् वेश्रौ
१८, ६ : १६; आप्नुयात् कप्र १,
१०, १२××; अप; आप्नुयुः
माश्रौ ६, १, ७, १४; कप्र १,
७, १२; शंथ ३०६; सु ३०, ५;
आप्नुयाम् शांश्रौ १४, २८, १;
१६, १, १; आप्नुयाम या १०,
२१.
आप शांश्रौ १५, १, १२; बौश्रौ
१८, ४९ : १३; आपतुः शांश्रौ

a) = ऋषि-विशेष- । व्युः ? । b) भानुमति- इति पाका. । c) अनृत- इति पागम. संस्कृतुः टि. पाभे. ।
तत्र अनृतवति वृत्तिः । d) = सृक्त-विशेष- । < आ नो भद्राः (ऋ १, ८९, १) इति । e) अस. वा. क्रिवि. ।
f) < ^cअम् इति । g) आप. (कम्पन-) । व्युः ? । h) या ३, १५; ६, १४; ८, ४; ९, २६; ११, २०; १४, ३४ पा ७,
४, ५५ पावा ३, ३, ९४ परामृष्टः द. ।

१५, १, १०; भापुः शाश्रौ १४,
१४, १; ६९, २; ७५-८४, २;
†भापत् शाश्रौ १८, ८, ५^६; आपगृ
८, ६; भापन् या ४, १३; आपम्
बौश्रौ १०, ५९: २०†; माश्रौ;
†भापम् आपाम्^७ बौश्रौ १९,
१०: ७; ४७; †आपाम काश्रौ
१५, ६, १९, आपश्रौ १६, १९,
८; वैश्रौ १८, १६: १७; हिश्रौ
११, ६, ४१; आमिगृ ३, ८, २:
१३; बौपि १, १५: २३.
भाप्यते बौश्रौ १०, ३५: २५××;
वाधुश्रौ; आप्यन्ते लाश्रौ १०,
६, १; निस् ५, ३: ६; ६:
१९; ९, ८: ७.
भापयेत् वाश्रौ ३, ४, ४, २७.
ईप्सते हिगृ १, २४, ६; ईप्सन्ति
शैशि ३३९; ईप्ससि सु ३०,
३; ऐप्सत् बौश्रौ १८, ४९: १२;
ईप्सेत शाश्रौ १४, ६२, २;
ईप्सेत् आपध १, १, १२^०; १९,
३; हिध १, ५, १०५.
भापन- -ना:, -नानि या १२,
३७.
भापयित्- -ता बौश्रौ १६, ६: १६.
†भापस्^८- पाउ ४, २०८; -प:^९
आपश्रौ ३, ११, २; ९, १२, २;
बौश्रौ २७, १: १४; माश्रौ ३,
१०, २; ९, १५, १७; वैश्रौ २०,
२४: ७; हिश्रौ २, ६, ९; कौगृ
१, ५, २९; बौगृ ४, ६-७, १.
भापत्, प्ता- -प्तः शाश्रौ १५, ३,
१६; ५, १३; आपश्रौ; या ३,

१५; -प्तम् आपश्रौ ११, ९,
८××; १२, ८, ५^१; १८,
१७, ७†^६; बौश्रौ; -सा
बौश्रौ १४, १५: २३; १६,
१६: ११†; -सा: वैश्रौ १३,
१: १८; वैगृ ५, ६: १२;
-सान् विध ३, १६; -सानाम्
हिश्रौ १३, ४, २; -साम् आपश्रौ
१५, १, १२; माश्रौ ११, १,
१७; हिश्रौ २४, १, ८; -से
वाधुश्रौ ४, ९०: ५; -सेषु
लाश्रौ १०, ६, ९; -सै: माशि
१६, ६.
भास-काम- -मस्य निस् २, ३:
२२; -मा: निस् २, ३: २०;
२३.

भासकाम-तर- -राणाम् निस्
२, ३: २७.
भास-दक्षि(णा>)ण^६- -णात्
वाधुश्रौ ४, ७४: ३२.
भास-पर्यन्त^१- -न्तम् अप ६४,
१, ७.
भास-फल^६- -ला: वाश्रौ २, १,
५, ११.
भास-संहार^१- -रम् वाधुश्रौ ३,
८३: १९.
भासा(स-अ)हर्मात्रा-सम^६-
-मानि निस् ३, १: २२.
भासव्य- -व्य: या १४, १०;
-व्यम्, -व्यानाम् या ११, २१.
भासि- -सि: निस् ५, ६: २०;
८, २: २४; ४: ९; ११, ११:
१६; अप ३५, २, ६; मीसू १०,

२, ८; -सिभिः^१ आपश्रौ १७,
२३, १२; बौश्रौ १०, ५९: २०;
माश्रौ ६, २, ६, २४; वैश्रौ १९,
७: १२; हिश्रौ १२, ७, ११;
-सी: आपश्रौ २०, ११, ७;
-प्या या २, ११; -प्यै शाश्रौ
१४, २, ११××; आपश्रौ.
भापित-त(र>)रा- -रा निस्
९, ११: ३३.
भासि-वचन- -नम् मीसू १०,
२, ९; -नात् मीसू १०, २, ५.
भासि-समर्थ-त्व- -त्वात् मीसू
१०, २, १२.
भापु^३-> भासोर्-याम^३- -मः
शाश्रौ १५, ५, १३: १६, १५,
७; वैगृ १, १: १०; -माणाम्
निस् ८, २: २१; -मे शाश्रौ
१५, ११, १४.
भासोर्-याम^३- -माणम् शाश्रौ
१५, ५, १.
भापुम् या ५, २८.
भापुस(ः) वाधुश्रौ ४, १०७: ५.
भाप्त्वा बौश्रौ १०, १९, १०××.
भापना^४- -नम् द्राश्रौ २, १, ७;
लाश्रौ १, ५, ४; ऋद्रा १४, ५३†;
-नेन द्राश्रौ ५, २, २४; ७, ४, ७;
लाश्रौ २, ६, १७; ३, ४, ६.
भापुवान- -नः या ३, १०.
भापुति->ति-कर्म^५- -र्मा या
७, १७; १०, २०^०; ११, २१.
भापुती(ति-इ)ति- -त्यो: शुद्रा
३, १४८.
२†भाप्य^६- -प्यम् या ६, १४:

a) पाभे. वैप १, ६५८ 1 द्र. । b) उत्तरत्र दीर्घः (तु. भा. सा [तैआ १, १, १]) । c) सप्र. ईप्सेत्
<>इच्छेत् इति पाभे. । d) वैप १ द्र. । e) पाभे. वैप १ परि. अपः (<अपस्-) ऋ १, ११०, १ टि. द्र. ।
f) सप्र. वैश्रौ १५, ९: १ अलम् इति पाभे. । g) पाभे. वैप १, ६५९ d द्र. । h) विप. । बस. । i) बस. पूष.
अर्थः? । j) वा. क्रिवि. । बस. उप. भाप., यद्रा उस. णमुलन्तम् । k) विप. । कस. >तृस. । l) =ऋग्
विशेष- । m) =अपु- । n) =सोमसंस्था-विशेष- । o) राभ्नो इति काचित्कः पाठः? ।

—प्यानाम् बौश्रौ १५, २९ : २५.
 आपस्यत्- -प्यताम् आश्रौ ११,
 २, ११; ४, ३; -प्यन् आश्रौ
 १०, ६, १; -प्यन्तः आश्रौ ११,
 ६, १०.
 ईप्सत्- -प्सतः आश्रौ १०, ३, १६;
 आपध १, १९, ९; हिध १, ५,
 १११; चाश्र ७ : ५; -प्सताम्
 आश्रौ ११, २, ९; -प्सन्
 शाश्रौ १४, १७-१९, १^२; आपश्रौ;
 -†प्सन्तः^३ आमिगृ २, १, ३ :
 १८; हिगृ २, ३, ७.
 ईप्सा- -प्साम् निस् २, ३ : २७;
 -प्सायाम् निस् ७, १ : ६.
 ईप्सित, ता- -तः पा १, ४, २७; ३६;
 -तम् सु ३०, ४; कौगृ ३, १,
 ११; शांगृ ३, १, १७; वागृ ६,
 ३०; अप १९, ३, ७; शंघ ४६२;
 -तस्य पावा १, ४, ४९; -ताम्
 विध ७१, ९१; -तैः शाश्रौ १६,
 ९, १०†; आमिगृ ३, ९, ३ : १३;
 बौपि २, ७, १३; ३, ७, ५; हिपि
 २३ : ३४.
 ईप्सित-तम- -मम् पा १, ४,
 ४९; पावा १, ४, २७.
 ईप्सितव्य- -व्यम् या १३, १३.
 ईप्सु- > ईप्सु-यञ्- -ञः काश्रौ
 २२, ५, ८.
 आप- ✓अप् द.
 आपक^b- (> आपकी- पा.) पाग ४,
 १, ४१.
 आपकर- अपकर- द.
 आपक्षिति-, -प्या- अपक्षित- द.
 आपगा- ✓अप् > २अप्- द.

आपघ्रापि^c- -पयः बौश्रौप्र २३ : ३.
 आपञ्चिक^d- (> आपञ्चिकी- पा.)
 पाग ४, १, ४१^e.
 आ✓पण > आपण- पा ३, ३,
 ११९.
 आपणीय- -यम् शंघ १३९;
 आपध १, १७, १४; हिध १, ५,
 ४६.
 आपण्य^f- -यानाम् बौध १,
 ५, ६१.
 आपणिक- पाउ २, ४५.
 आ✓पत् (गतौ), आपतति काध
 २७३ : ४१; आपतन्ति कौस्
 ३४, २४; आपतन्ति शाश्रौ
 ९, ६, १५†; †आ (पताति)
 माश्रौ ५, १, १०, ३९; ५३; ऋअ
 २, ७, २५; -†आपत आश्रौ २,
 १८, १३; बौश्रौ ५, १० : २१;
 आपमं १, १२, ७; बौगृ १, ७,
 ४१; मागृ २, १८, ४; आपतत्^g
 या ११, १४; आपतत् आपश्रौ
 १५, १७, २; बौश्रौ ९, १७ : ३०;
 भाश्रौ ११, १७, २†; आपतेत्
 आपश्रौ १५, १७, २; बौश्रौ ९,
 १७ : २९; भाश्रौ ११, १७, २;
 वाध ४, २४; गौध १४, ६.
 आपपात वाधूश्रौ ४, ३७ : ७;
 आपसत् बौश्रौ ९, १८ : १७†;
 आपपत्त > ता या ११,
 १४†^h.
 आपतिक- पाउ २, ४५.
 आपतित- -तम् बौश्रौ १७, ४४ :
 ३; बौगृ १, २, ३६; बौपि २, ९,
 ९; -तस्य आमिगृ ३, ११, ४ :

४३.
 आपात- > °तिक- -केभ्यः मागृ
 २, १२, १७.
 आपातित- > °त-मन्युⁱ- -न्युः
 या ५, १२.
 †आ-पति^j- -तये काश्रौ ८, १, १४;
 आपश्रौ ११, १, १; बौश्रौ ६,
 १९ : १; भाश्रौ १२, १, १;
 वाधूश्रौ ४, ५४ : २; वैश्रौ १२,
 २२ : १३; हिश्रौ ७, ३, ६९;
 वेताश्रौ १३, १६; शुअ १, ३०१;
 -तिः वाधूश्रौ ४, ५४ : ३६;
 चाश्र २ : ११.
 आपत्य- अपत्य- द.
 आ✓पद्, आपद्यते शाश्रौ १,
 २, ९; वाधूश्रौ; या २, ८^२;
 आपद्यते उस् ८, ५; माशि ७, ६;
 याशि १, ८०; नाशि २, १, २;
 आपद्येत आश्रौ २, ५, ७; बौश्रौ;
 आपद्येरन् लाश्रौ ९, १२, १२;
 वाध १५, १४.
 आपदे अप ३३, १, ३.
 आपाद्येत् बौश्रौ २२, ८ : २८;
 २४, ६ : १२; ७ : २; आपाद-
 येयुः निस् ९, ११ : ४.
 आपत्ति- पावाग ३, ३, १०८; -त्तिः
 आश्रौ १, १२, २५; -त्तिम् शंघ
 ११६ : २९^१; -त्तौ अप्राय ३, ५, ८.
 आपत्ति-विहार- -रौ मीस् ५,
 ३, ४०.
 आपद्- पावाग ३, ३, १०८; -पत्
 कागृउ ४१ : १२; अप ४०, ५, ४;
 -पत्सु बौश्रौ २७, ११ : १३××;
 वैश्रौ; -पदः कागृउ ४५ : १८;

a) सप्र. ईप्सन्तः <> इच्छन्तः इति पाभे. । b) अर्थः व्यु. च ? । c) = ऋषि-विशेष- । व्यु. ? ।

d) अर्थः व्यु. च ? । = तदाख्यजनपदवासि-क्षत्रियविशेष- इति पागम. । e) °पिच्छिक- इति पाका. । f) विप. ।
 तत्रभवीयः ढक् प्र. उत्सं. (पा ४, ४, १०४) । g) लोटि मपु३ रूपम् । h) विप. । बस. । i) वैप १ द. ।
 j) पाठः ? आपत्तिम् इति शोधः (तु. अपु २१९, १०) ।

अप्राय ३,५; ८; अप ७,१,१३;
 वाध १,४५; -पद्म अप ४,
 १, २४; वाध २६, १६; आज्यो
 ४,३; -पदा आश्रौ १२, ८, २३;
 -पदाम् अप्राय ३, ८; -पदि
 काश्रौ २५, १४, ७; आपश्रौ;
 विध २२, ५५^६; -पदोः लाश्रौ
 १०, १७, ९; -पद्भ्यः सु ३१,
 ६; कप्र २, १०, ८.
 आपत्-कल्प- -ल्पः वैश्रौ २,
 २ : १५; ४, ९ : १४; गौध ७,
 १; ९, ६७; -ल्पे वैश्रौ २०,
 १३ : १०.
 आपत्-कारित- -ताः आश्रौ ८,
 १४, ४.
 आपत्-काल- पाग ४, २,
 ११६; -लेषु अप २३, ८, ५.
 आपत्कालिक- पा ४, २;
 ११६.
 आपत्-का(ल)ला^१- ला
 माश्रौ ५, १, १, २.
 आपद्-अनुवृत्ति- -सौ काण्ड
 ४५ : १३.
 आपद्-अर्थवाद^८- -दः हिश्रौ १,
 ६, २९.
 आपद्-भार्ति- -र्योः वैध २,
 १२, २.
 आपद्-गत- -तस्य वैश्रौ २०,
 १५ : ९.
 आपद्-दाह^८- -हम् वैश्रौ ५, ९ :
 १; ५; १५.
 आपद्-धो(<हो)म- -मः बौश्रौ
 २८, १२ : १०.
 आपद्-निवृत्ति- -सिः काण्ड
 ४५ : १४; ४६ : १.

आ-पद्य आश्रौ १, ५, ३८;
 आपश्रौ.
 आ-पद्यमान- -नः शाश्रौ १३, २४,
 १६; आपद्य १, ८, २६; हिध १,
 २, ११४; -नानाम् चाश्र १६ :
 ३०; ३९ : ७.
 आ-पद्, ज्ञा- -ज्ञः निसू ७, ३ : १८;
 १०, २ : ३४; शंघ १३०; नाशि
 २, ५, ९; पा ५, १, ७३; आज्यो
 १४, ३; -ज्ञम् काश्रौ २, ६, ३३;
 माश्रौ २, १, ३, ५४; हिश्रौ ७,
 १, ७३^१; निसू २, १ : १२;
 ७, २ : ८; ८, ४ : १६; ९, ६ :
 १९; १०, १ : ५; २ : ४१; -ज्ञा
 सु ३, ३; कप्र ३, १, १२; -ज्ञाः
 आपश्रौ १६, २०, ५; हिश्रौ
 ११, ६, ५२; निसू ७, १३ : ६;
 १४; ९, ११ : २५; -ज्ञान् वैश्रौ
 १८, १६ : २२; -ज्ञानाम् या
 द, २७; -ज्ञे निसू १०, ९ : २०;
 -ज्ञेषु लाश्रौ ७, ९, १३.
 आपद्-तर- -रम् निसू ७, १३ :
 १४.
 आपद्-देह^१- -हानाम् वाध २०,
 ४३.
 आ-पादयितव्य- -व्यान् निसू ९,
 ११ : ५.
 आ-पाद्य काश्रौसं २९ : ९.
 आ-पद्-क्रम^१- -मम् उसू ८, ३५.
 आपद्यप^८- -पाः बौश्रौ ३१ : २.
 आ/पन्, आ(पनन्त) शुभ्र ३, १८९.
 आ-पनिक- पाउ २, ४५.
 आपमित्यक- अप/मे द.
 आपत्ति त्वा बौश्रौ १८, ४५ : १५.
 आपरकारिक- रअपर- द.

आपराध्य- अप/राध् द.
 आपराहिक- रअपर- द.
 आ-परिधाना(न-अ)न्त^१- -न्तम्
 आमिष्ट १, ६, १ : १०.
 आपकर्ष-पृष्ठ^६- -ष्ठस्य शाश्रौ १०,
 ८, २१; -ष्टौ लुसू २, १३ : १.
 आपकर्ष-पृष्ठ्य^६- -ष्ठ्यः आश्रौ ८,
 ४, २६.
 आपर्तु^१ कौसू १४१, ४२.
 आपर्तुक- अप(प-ऋ)र्तु- द.
 आपर्वणिक- अपर्वन्- द.
 आपवादिक- अप/वद् द.
 आ/पश, आपश्यति^१ कौसू २८, ७;
 अप ३२, १, ३; ४; अपं २ : ३६;
 अश्र ४, २०; आपश्यसि सु ६, १.
 आपस्तम्ब^८- (> आपस्तम्ब- पा.)
 पाग ४, १, १०४; -म्बम् आमिष्ट
 २, ६, ३ : ३९; शंघ ११६ : ४१;
 बौध २, ५, २७; -म्बस्य याशि
 २, ४०; -म्बाय बौध ३, ९, ६;
 भाग ३, ११ : ४; -म्बे अप २३,
 ११, २^१.
 आपस्तम्बी^६- -म्बी चव्यू २ :
 १६.
 आपस्तम्बो(म्ब-उ)क्त-वृक्षो(क्ष-
 उक्त) क्त^१- -क्ताः काण्ड
 ४० : २१.
 आपस्तम्भ^८- -म्भाः बौश्रौ ११ :
 १४.
 आ/पा (पाने) > षुआ-पात्^{१३}-
 -पात्तम् आश्रौ ६, ४, १०;
 शाश्रौ ९, ७, १; निसू १, ३ : २१;
 उनिसू ४ : १९; ७ : ४; ऋश्र २,
 ८, ९२; बृदे ६, १०७; साश्र १,
 १५५.

a) पद्यति इति Jolly ?। b) विप.। बस.। c) सस.। d) अस. > दस.। e) = ऋषि-विशेष-। व्यु. ?।
 f) अस. > बस.। g) = पृष्ठ-विशेष-। कस. पू. ?। h) पाठः ? अप(प-ऋ)र्तु इति शोधः (तु. ३२तमं सूत्रम्)। i) पाने.
 वैप १, ६६१० द.। j) = प्रन्ध-विशेष-। k) = शाखा-विशेष-। l) तुस. > कस. > तुस. [साधनतया]। m) वैप १ द.।

आ पाक^a- -कम् माश्रौ ६, १, २, १५.

आपाघ- २रुपाघा- द्र.

आपातिक-, आपातित-मन्यु- आ-
√पत् (गतौ) द्र.

आ-पाद्^b- -दम् वैध २, १०, ७.

†आपात^c- -नः निघ २, १८; या ३,
१०; -नम्^d कौप् ६२, १५;
६६, ७.

?आपान्तम्^e हिश्रौ २२, ४, ५१.

†आपान्त-मन्यु^f- -न्युः बौश्रौ १३,
२५; २; अगुल ११५; वृदे ७,
१४४; निघ ४, २; या ५, १२७.

आपाम्बानिक^g- -काः बौश्रौप्र ४१ :
४.

आपारि- आघाटि- टि. द्र.

आपि^h- -पये काश्रौ १४, ५, १; शुअ
१, ५७२; -†पिः द्राश्रौ ७, २, ७;
लाश्रौ ३, २, ७; -†पीनाम् आपमं
२, २, ८; आमिगु १, १, २; ३३; ५,
१: २५; वीगु २, ५, १२; भागु
१, ६: २; १३: ९; हिगु १, ४, ३.

†आपयⁱ- -प्यम् या ६, १४७.

आपिच्छिक-> की- आपचिक- टि.
द्र

आपित्व(त-व)^j- -त्वे या ३, २०१.

आ/पिश् > भा-पिंशत्- -शन्
वाधूश्रौ ३, ९४ : १५.

आपिशाल-, णि-, ल्या- अपिशलि-
द्र.

आपिशुन्य- अ-पिशुन- द्र.

†आ/पिष्, आपिनष्टि शाश्रौ १२,
२२, १; बौश्रौ १५, ३० : २१९;
आपिपेवे काश्रौ १९, २, ३०; वाश्रौ

३, २, ७, ४५: ८, ३; शुअ २, ३७३.

आपी- √अप > २अप्- द्र.

आ/पीह > भा-पीह्य आगु ४, ४,
१०.

आ-पीन- आ/प्यै द्र.

†आपीवान्^k कागु ४१, ७१.

†आ/पु, पू, आपवस्व काश्रौ २५,
६, ६; बौश्रौ २८, ७ : १४; वैश्रौ
२०, ३६ : ५; अत्राय २, ६;
ऋअ २, ९, ६३; शुअ १, ५५०;
साअ १, ५०१; आ...पवस्व
ऋअ २, ९, ३५; (आ)पवस्व साअ
२, ७८५.

†आ-पूत- -तः माश्रौ २, १, १, ३०;
हिश्रौ १०, १, ३६.

आपूपिक- अरूप- द्र.

आपूर्विक- ३अपूर्व- द्र.

आ/पृ (प्रीतौ), आपृणोषि आपश्रौ
२४, १२, ९१.

आ/पृ, पू, आ...अपृणात् आपमं
२, ११, ६१; †आ (अपृणात्)
शुअ ३, २३७; उस् ४, १७.

आपूर्यताम् भागु २, १४ : १६१.

आ...पूरयाध्वै बौश्रौ १८, २९ :

७१; †आपूरयन्तु आपश्रौ १६,

३४, ४; हिश्रौ ११, ८, १५;

†आ...पूरयत आश्रौ ६, १२, ४;

आपश्रौ १३, १७, ८; बौश्रौ ८,

१७ : ३; वैश्रौ १६, २१ : ५;

हिश्रौ ९, ४, ५३; जैश्रौ २० : ३;

आपूपुरत् या १२, १६; आपूपुरः

या ९, २९.

आ-पुर- -पुरः शाश्रौ ८, ८, १११.

†आ-पूणै- -णैः आश्रौ ५, ५, १९;
शाश्रौ ७, १७, ११.

आ-पूर्य जैश्रौका १९८; वैगु.

आ-पूर्यमाण- -णम् लाश्रौ १०, १६,
२; ५; विघ ७२, ७; -णे वैगु ३,
२३ : २^१.

आपूर्यमाण-पक्ष^l- -क्षम् शाश्रौ
१३, २९, ७; आपश्रौ २३, १२,
१७; हिश्रौ १८, ४, ३१; या
१४, ९; -क्षस्य आपश्रौ १५,
१, १; २०, २; १८, २२, १६; २१,
२, ११; बौश्रौ ५, १ : २; २१,
१ : १६; माश्रौ ४, १, १; वैश्रौ
८, ३ : ३; हिश्रौ १३, ७, ३३;
१६, १, ३५; आपघ २, २०, ३^२;
-क्षात् या १४, ९; -क्षे आश्रौ
९, ३, २४××; बौश्रौ; हिघ २,
५, ९०^३.

†आ-पूर्य >)र्या^m- -र्याःⁿ आश्रौ
६, १२, ५; आपश्रौ १३, १७, ८;
बौश्रौ ८, १७ : ३; वैश्रौ १६, २१ :
५; हिश्रौ ९, ४, ५३; जैश्रौ २० : ३.

आ/पृच्छ^o > भा-पृच्छय^p- पा ३,
१, १२३; -च्छयम् ऋप्रा १४,
४८: ५२१.

†आ/पृष्, आपृणस्व > स्वा तैप्रा
३, ८; आपृण शाश्रौ १, १५,
१६××; आपश्रौ ७, २७, ४^०××;
बौश्रौ; माश्रौ^q १, ८, २, ११; २,
२, ३, २०; आ...पृण बौश्रौ
१३, ३९: १५; माश्रौ ७, ८, ९^१;
आमिगु २, ५, १० : ३४;
आपृणेत्याम् आपश्रौ ७, ९, १०^२;

a) अस. वा. क्रिधि. द्र.। b) वैप १ द्र.। c) =गर्त-। d) आपान्तमन्युः (ऋ १०, ८९, ५) इत्यस्य प्रतीकं संभाव्यते।

e) =ऋषि-विशेष-। व्यु?। f) पाभे. वैप १, ६६२ e द्र.। g) वैप १, ६६२ g द्र.। h) वैप १, ६६२ h द्र.। i) पाठः? आपीनाम् इति शोधः (तु. आपमं २, २, ८ प्रमृ.)। j) सपा. आपृणोषि <> आपृणोऽस्ति इति पाभे.। k) पाभे. वैप १, ६६४ b द्र.। l) =शुक्रपक्ष-। m) सपा. अक्षस्व <> अक्षे इति पाभे.। n) पावा १, ३, २१ परामृष्टः द्र.। o) पाभे. वैप १, ६६४ i द्र.। p) पाभे. वैप १, ६६४ j द्र.। q) पाभे. वैप १, ६६४ k द्र.।

११, १०, ४; बौश्रौ ६, २७ :
१२; भाश्रौ ७, ७, १६; वैश्रौ
१०, ८ : ७; १४, ११ : ३; हिश्रौ
४, २, ४३; ७, ७, १०.

फा-पृण- -णः^a शाश्रौ १, १५,
१६; बौश्रौ ३, ३० : १४.

फा-पृणत्- -णन् आपश्रौ १६,
१८, ६; वैश्रौ १८, १५ : १९;
हिश्रौ ११, ६, ३०.

आपृथि- भाशि ७२.

आप्त- , षव्य- प्रभृ. √आप् द्र.

आप्त्य^b- -त्यः ऋअ २, १, १०५ फं × ×;
शुअ; -प्त्यम् या ११, २१ फं;
-प्त्याः वृदे १, ११६; ८, ४०;
१२६; १२८; निघ ५, ५; या
११, २० फं; -प्त्यान् वैताश्रौ १७,
७; -प्त्यानाम् या ११, २१ फं;
-प्त्येभ्यः काश्रौ २, ५, २६;
काठश्रौ ६३^c.

आप्त्या (प्य-अ)न्त^e- -न्ते काश्रौ
५, ८, २१.

आप्तवान- √अप् > अण- द्र.

आप्तान- प्रभृ. √आप् द्र.

१आप्त्य- २अप्- द्र.

२आप्त्य- √आप् द्र.

३आप्त्य- आपि- द्र.

आप्त्यत्- √आप् द्र.

आ/प्याय्, प्यै, आप्यायते बौश्रौ
५, ४ : १५ फं; वाधूश्रौ ४, ९६ :
३२^d; अष ४१, ४, ४; आप्यायति
बौश्रौ ४, ६ : ४७; वाश्रौ १, २, १,
७; आप्यायन्ति हिगृ १, १६,
१ फं; आप्यायसे या ११,
५ फं; आप्यायताम् आश्रौ ४, ५,
६ फं; शाश्रौ; फा...प्यायताम्

आश्रौ ४, ५, ६; शाश्रौ; फा...प्या-
यन्ताम् आपश्रौ ३, ६, १; बौश्रौ;
आप्यायन्तु पागृ ३, १५, २३;
फा...प्यायस्व आश्रौ १, १०, ५ × ×;
शाश्रौ; फा...प्यायस्व आश्रौ
४, ५, ६; शाश्रौ; फा...प्यायध्वम्
आपश्रौ १, २, ६; बौश्रौ;
आप्यायेय वाधूश्रौ ४, ९६ : ३०;
फा...प्यासिषीमहि^d शाश्रौ १,
१२, १२; बौश्रौ ९, १४ : २०;
१६ : २; भाश्रौ ४, १७, १;
हिश्रौ ६, ३, ८; कौगृ २, ६, ६;
शांगृ २, १०, ४; आमिगृ १, १, ४ :
३५; हिगृ १, ८, ४; आ...
प्यासिषीमहि^d आपश्रौ ३, ४, ६;
माश्रौ १, ६, १, ३४; वाश्रौ १,
१, ५, २०.

आप्याययनि शाश्रौ ४, ११, १;
आपश्रौ; या ६, २८; आप्याय-
यन्ते शाश्रौ ५, ८, ३; आप्याय-
यन्ति आश्रौ ४, ५, ४; शाश्रौ; या
५, ११ फं; फा...प्याययन्तु शाश्रौ
५, ८, ४; फा...प्यायय आश्रौ ४, ५,
६; शाश्रौ; फा...प्याययेत् काश्रौ सं
३३ : ५; ६; बौश्रौ; आप्यायये-
ताम् बौश्रौ २०, १५ : ८; ३१ :
१४; २१, ८ : ४२.

आ(पीपयन्) वृदे ४, १७ फं.

आ-पीन- पावा ६, १, २८; -नः
माश्रौ २, ५, ४, २४.

आ-प्याय वैश्रौ २१, १५ : २; ३.

१आ-प्यायन- -०न विध १, ५६;
-नम् शंघ ११६ : ५६; -नानि
बौश्रौ २७, २ : २२.

आप्यायनी^e- -नी शाश्रौ ७, ५,

१७; -नीभ्याम् बौश्रौ २७, ३ :
१३.

२आ-प्यायन^f- -नम् आश्रौ ४,
८, ९; माश्रौ २, ४, १, ५६; वैश्रौ
२१, ८ : ८; हिश्रौ १०, ३, ३५;
जैश्रौका १४८; लाश्रौ २, ५,
१२; वैताश्रौ १५, २१^g; कप्र
३, ८, १७; -नाय माश्रौ २,
२, १, १२; जैश्रौ १९ : ७; -ने
बौश्रौ २०, १५ : ७; ३१ : १३;
२१, ८ : ४१.

आप्यायन-निधान- -ने वैश्रौ
१६, ९ : ७.

आप्यायन-प्रभृति- -ति शाश्रौ.
५, ८, ६.

आप्यायन-संभरण- -णे काश्रौ
९, ५, ९.

आप्यायन-सादन- -ने हिश्रौ
८, ८, ३५; ४०; ९, २, २७; ३४;
४, ४३.

आप्यायना(न-अ)न्त^h- -न्तः
काश्रौ ९, ५, २.

आप्यायना(न-अ)भिषवां(व-अ)
इव(शु-अ)दाभ्य- -भ्येषु काश्रौ
७, ६, २६.

आप्यायनाभिषवांइवदाभ्या
(भ्य-अ)र्थ- -र्थम् वैश्रौ १२,
१७ : ८.

फा...प्यायमान, ना- -नः आपमं
२, ६, ११^d; कौसृ ६८, १०; -ना
आपश्रौ २, २०, ५; बौश्रौ; -नाः
आमिगृ ३, ७, १ : २२; कागृ
४५, ८; बौपि १, १७ : २१;
मागृ २, १, १३.

आ-प्याययत्- -यन् वाधूश्रौ २,

a) पांम. पृ ५२९ j द्र. । b) वैप १ द्र. । c) षस. पूष. = आप्त्येभ्यः [पात्र्यङ्गुलिप्रक्षालननिनयनादि-]
कर्मन्- । d) पांम. वैप १, ६६५ h द्र. । e) = ऋगृ-विशेष- । f) माप. । g) णान् इति पाठः ? यनि.
श्लोचः (तु. C. [ZDMG ५७, ७४०]) । h) विप. । बस. ।

१६ : १०; -यन्तः बौध्रौ ९, ८ : १०; १७, ४६ : ९; -यन्तौ आपध्रौ १, ६, १०[†]; बौध्रौ १, ४ : १७; माध्रौ १, १७, ९; हिध्रौ १, ३, ११.
आप्याययन्ती- न्त्यः बौध्रौ १५, २९ : २२.

आ-प्यायित, ता- न्तः बौध्रौ ७, १५:२४; १९, १० : २९; वैध्र १, १४ : १४; -ता निस् १, ११ : ३; -ताः बौध्रौ ७, १५: १३××; -तान् आपध्रौ ५, ६, ३०.
आप्यायित-व(त् >)ती^a-
-तीनाम् शाध्रौ ७, १५, ४.

आप्यायितवती-प्रभृति- न्ति
शाध्रौ ७, १५, ९.

आ-प्यायि(त् >)नी^b- न्नी नाशि
१, २, १०^c.

आ-प्याय्य आध्रौ ६, १२, २××;
आपध्रौ.

आ-प्याय्यमान, ना- न्तः माध्रौ ४, ३८; शुभ्रा ४, १५३[†]; -नाम्
बौध्रौ ३, २० : ५; -ने आध्रौ ५,
१२, १६.

आप्र- आ√प्री द्र.

आ-प्र-पद्^d- दम् पा ५, २, ८.

आप्रपदीन- पा ५, २, ८.

आ-प्र-पूर्व^e- -र्वः भास् १, ७.

आ-प्र√या, आप्रयाहि आध्रौ ८,
११, ११[†].

आ-प्रलय- यम् वाध २०, १३.

†आ√प्रा, आप्रप्रौ आपध्रौ १६, ११,
१२; वैध्रौ १८, १० : ६; हिध्रौ
११, ४, १२[†]; आ...पप्रौ ऋप्रा

१६, ७८; आप्रप्राथ माध्रौ ५, २,
३, १३.

आ(आ-अ)प्राः[†] बौध्रौ ८,
५ : १०; माध्रौ ६, १, ७, ३०;
जैघ्र १, ४ : १०; या १२, १६;
आ(अप्राः) शुभ्रा ६, ६[†].

आ...अप्रायि अप्र ४, १, ५,
७; या ९, २९[†]; आ(अप्रायि)
शुभ्र ४, १९; अत्र १९, ४७.

आ-प्रातराश- शम् कौस् १४१,
१८.

आ√प्री, आप्रीणाति वाध्रौ ३, ८९:५;
या ८, ४[†]; †आप्रीणे आपध्रौ
१६, ३४, ४; वैध्रौ १८, २१:३८;
हिध्रौ ११, ८, १५; †आप्रीणाथाम्¹
द्राध्रौ २, ३, ८; लाध्रौ १, ७, ७;
‡आप्रीणीथाम्¹ जैध्रौ ६ : ९[†];
आप्रीणीयात् वाध्रौ ३, ८९ :
२; ४; ५.

आप्रीमे¹ आपध्रौ ४, १२,
३[†].

आप्रीमे(‡प्र)यम् हिध्रौ ६, ३,
११[†].

आ-प्री¹- -प्रियः शाध्रौ ५, १६, ५;
१६, ३, २१; १२, १८; काध्रौ
१६, १, १२; १९, ६, १२; १५;
आपध्रौ १४, ३१, ८[†]; १६, ७, ९;
२०, १७, ३; बौध्रौ १५, २८ :
९; वैध्रौ १८, ५ : ७; हिध्रौ ११,
२, ७; १४, ३, ५, ४; ऋध्र २, १,
१४२; १८८; ३, ४; १२; ९,
५; १०, ११०; वृधे ४, १६;
६५; ५, २६; ७, १०७; शुभ्र ३,
१०६; चात्र ४१ : १५; सात्र

२, ६९७; या ८, ४[†]; -प्रियम्
शुभ्र ३, ८०; -प्री आध्रौ ३, ४,
३; माध्रौ ५, २, ११, ७[†];
४३; -प्रीः बौध्रौ २२, ८ :
२७; माध्रौ ६, १, ३, ३;
१३; २, २, १६; वाध्रौ ३, ८९ :
१; वाध्रौ २, १, २, ११; ३, २, ८,
७[†]; १०; १५; वैध्रौ १८, ५ : ९;
शुभ्र २, ४३०; ४३९; ३, ११०;
११२; -प्रीणाम् शाध्रौ ५, १८,
३; बौध्रौ १०, ११ : ७; -प्रीभिः
आध्रौ ३, २, ५; आपध्रौ २०,
२०, ८; माध्रौ ५, २, ८, १८;
वाध्रौ ३, ८९ : ५[†]; हिध्रौ १४,
४, ४३; या ८, ४[†]; -प्रीषु
वाध्रौ ३, ८९ : ४; अप्रय ३,
२; वृधे २, २८; १५१; -प्रयः
वृधे †४, ६२; ९६; ५, २५; १६०;
६, १३०.

आप्र¹- -प्रम् ऋध्र २, २, ३; ५, ५;
७, २; १०, ७०; शुभ्र २, ४५७.

आप्र-शब्दो (ब्द-उ) क्त-
-कानि ऋध्र २, १, १३.

‡आप्री-देवता¹- न्ताः शुभ्र २,
४३१; या ८, २१.

‡आप्री-देव(त् >)ता¹- न्ताः शुभ्र ३
१०२.

आप्री-प्रैष¹- -षाः शुभ्र २, ४५९;
-षौ माध्रौ ५, २, ११, ३९.

आप्री-सूक्त¹- -क्तम् शाध्रौ ११,
१३, ७; ऋध्र २, १, १३; वृधे ८,
३७; -कानि आध्रौ १२, १०,
१; वृधे २, १५२; या ८, २२.

‡आ-प्रीत- -तम् आपध्रौ ९, १८,

a) = ऋग्-विशेष-। b) = मूर्छना-विशेष-। c) ष्यनी इति लासं.। d) पाभे. वैप १, ६६६ g द्र.।

e) अत्. > प्रास.। उप = पदाप्र-। f) द्रस. > बस.। g) ष्यप्र इति पाठः ? यनि. शोधः (तु. आपध्रौ.)। h)

वैप १, ६६७ b, c द्र.। i) पाभे. वैप १, ६६४ j द्र.। j) पा ७, १, ४०। k) परस्परं पाभे. द्र.। l) वैप १ द्र.।

m) श्री < > प्रीः इति पाभे.। n) नाप.। तत्पेदमीयः त्वाधिकश्च जण प्र.। o) षस.। p) विप.। बस.।

१३१; बौश्रौ १४, ३ : ८; ९;
आपध १, १७, १०; हिध १, ५,
४२; -तानि बौश्रौ १६, १२ :
२; ५.

आ-प्री-, १आ-प्रीत- आ/प्री द्र.
२आप्रीत- (> आप्रीतक- पा.)
पाग ४, २, ५३.

आ/प्लु, आप्लवन्ते आश्रौ ६, १३,
११, १४; शाश्रौ; ऋआप्लवस्व
बौश्रौ १९, १० : ५०; आप्लवेत्
शांश्र ४, १२, ३१^०; कप्र ३, ६,
१५.

आप्लुवीत कौश्र ३, ११, ३१^०.

आप्लावयति बौश्रौ १८, १९ :
९; बौश्र; आप्लावयन्ति गोश्र २,
५, ६; १०, ६; कौसू ८०, १४;
आप्लावयेत् आश्रौ ६, ९, १; द्राश्र
१, ४, १३; अशां २४, ७^१.

आ-प्ल, प्लव- पा ३, ३, ५०.

आ-प्लवन- नम् बौश्रौ २१, ३ : ८;
२३, १६ : २२; गोश्र ३, ४, ६;
द्राश्र १, ३, २; ३; -ने द्राश्र ३,
१, १.

आप्लवन-मात्र- अत्र क् काश्रौ
२४, ६, ३८.

आप्लवना(न-अ)वसेचन- ना-
नाम् कौसू ७, २६.

आ-प्लवमान- नौ हिश्रौ १०, ५,
२६.

आ-प्लावयित्वा गौपि १, ५, ३३.

आ-प्लाव्य आश्रौ ६, ९, २; आश्र.

आ-प्लुत, ता- न्तः वीध ४, २, ८;
-ता गोश्र २, १, १६; ६, २; ९;
७, ३; -ताः पाश्र ३, २, ६;

-ताम् गोश्र २, १, ९; -ते जैश्र
१, ११ : २२.

आप्लुता(त-अ)वसिक्त- -क्तौ
कौसू ७, १७.

आ-प्लुत्य शाश्रौ ४, १४, ५;
आपश्रौ.

आप्सव- अप्लु- द्र.

आ/फण् > ऋआ-पनीफणत्- -णत्
या २, २८^०; शुप्रा ६, ८; तैप्रा
१३, १२; भाशि ५८; पा ७,
४, ५६.

आ/बध्, न्ध्, आबध्नीते बौश्रौ १३,
३२ : १९××; काश्र; आबध्नाति
आपश्रौ १०, ९, १०××; बौश्रौ;
आबध्नामि पाश्र २, ६, २४;
आबध्नीताम्, आबध्नाताम् शांश्र
४, १५, ९^१; ऋआ(आ-अ)बध्न्
कौसू ११, १९; अप १८^३, १, २;
अशां १९, ५; अश्र १, ३५;
आबध्नीत बौश्रौ १८, ९ : ३३;
लाश्रौ; आबध्नीयात् आपश्रौ १९,
२६, ४; ७; १०; अप ११, १,
९; २०, ६, ८; आबध्नीरन् गोश्र
३, ८, ६; आबध्नीयुः द्राश्रौ
११, ३, २०; लाश्रौ ४, ३,
१९.

ऋआबधे दंवि २, ६; ७; ऋआब-
बन्ध आपश्रौ १६, १६, १; बौश्रौ;
आबधुः दंवि २, ६^१.

आ-बद्ध- न्धेन शांश्र २, १,
२५^०.

आ-बध्न्त्- -ध्न् द्राश्र २, ४, २०;
कौसू ५२, २^१; ऋअप ४, १, ५;
१३, १, ७.

आ-बध्य माश्रौ २, १, १, ४; लाश्रौ.
आ-बध्यमान- ने आपश्रौ २२,
२६, ९; हिश्रौ २३, ४, २२.

आ-बन्ध- न्धेन कौश्र २, १,
२५^०.

आ-बन्धन-> णीय- -यम् काश्र
३६, ५; -ययोः आपश्रौ १६,
१८, ६; वैश्रौ १८, १५ : १६;
हिश्रौ ११, ६, २८^१.

आब L, व] न्धका- (> णकायनि-
पा.) पाग ४, १, १५४.

आबन्धकि- अबन्धक- [परि.] द्र.

ऋआबयु- -यो कौसू ३०, १; अअ
६, १६; अप २ : ५५; दंवि
२, ३.

आ/बाध्, आबाधते वाध्श्रौ ४,
४३ : ८; आ(आ-अ)बाधन्त
वाध्श्रौ ४, ४३ : २.

आ-बाध- -धः अश्रा १, १, ४;
-धाय अश्रा ३, ४, १; -धे पा
८, १, १०.

आबुध्य- अ-बुध- द्र.

आ/बृह्(उद्यमने), आबृहेत् माश्रौ
३, ५, ५.

आ-बर्ह-> णिन्- -हिं पा ४, ४,
८८.

आबिदिक- √अप् > २अप्-> द्र.
आ-ब्रह्म- -ह् शांश्र १२२.

ऋआ/भज्, आभजामि आश्रौ १,
२, १; आभज आपश्रौ २२,
१५, १३; बौश्रौ १६, २५ : ४;
१०; १८; २६ : ३; हिश्रौ १७,
६, २६; आपमं २, ११, २९;
कौसू ७०, १; आ...भज आपश्रौ

a) अर्थः व्यु. च ? । =अप्री(प्री)दी- (जाति-विशेष) इति वापाभा. [४६५]। b) सपा. आप्लवेत्<>
आप्लुवीत इति पाभे.। c) वैप १ द्र.। d) सपा. आबद्धेन<>आबन्धेन इति पाभे.।
e) व्यप.। व्यु. ?। f) भाप., नाप. (अप्रा.)। वैप १ द्र.। g) अस. समासान्तप् टच् प्र. (पा ५, ४,
१०९)।

२,१४,१०; बौश्रौ १,१५: २४;
भाश्रौ २, १४, १; माश्रौ १, ३,
१, १८; वाश्रौ १, ३, ४, १३;
हिश्रौ २, ५, ३७; आपमं २, ११,
२९.

आ-भज(त् >)न्ती-न्ती^१ काय
४१, ११; माय १, २२, १०;
वाय ५, ७.

आभयजात-, ०थ- अभयजात-द्र.
†आ/भा, आभाति आश्रौ ४, ६,
३××; शाश्रौ; †आ...भाति
शाश्रौ ८, २२, १^१; आपमं २,
११, २४; या ७, २३; आ(भाति)
या ७, २३; आभाहि आपश्रौ
११, १२, ३; हिश्रौ ७, ६, १८;
शुश्र ४, २७.

आ/भाष् > आ-भाव्य कप्र २,
५, ५.

आ/भास्, आभासयति या ७, २३.

आभासुर^१-रम् शंघ ११६: २४.

आभिगामिक- अभि/गच्छ्,
गम् द्र.

आभिचरणिक-, आभिचारिक-
अभि/चर् द्र.

१आभिजित- अभि/जि द्र.

२आभिजित-, ०जित्य- ३अभि-
जित्-द्र.

आ/भिद्, आभिद्येत् आपश्रौ १४,
३३, ९.

आभिप्रतारिण- अभिप्रतारिन्-द्र.

आभिप्लविक- अभि/प्लु द्र.

आभिमुख्य- अभि-मुख-द्र.

आभिरूपक-, ०थ- अभि-रूप-द्र.

आभिशास्त्य- अभि/शोस् द्र.

आभिविक्त- अभि/षिच्, ञ्च् द्र.

आभीक- २अभीक-द्र.

आभीक्षण्य- अभीक्षण-द्र.

आभीर^०- पाउभो २, ३, ५०.

आभीशव- २अभीशु-द्र.

†आभु:^१ आपश्रौ १, ९, ९^१; बौश्रौ २,
१०: ७; आपमं २, १९, १; ३;
५; आम्रिण ३, १, १: २१; बौग
२, ११, २८; हिग २, १०, ७.

†आ/भू, आ...भवन्तु आपश्रौ २०,
११, ९; बौश्रौ १५, ३६: २०;
आ (भवन्तु) काय ८, ३; ४९,
१; चाश्र ४२: ४.

आबभूव शाश्रौ ४, १२, १५××;
बौश्रौ; आबभूवौ^३ शौच १,
७०; ९७; १०५; आभुवत्
आश्रौ २, १७, १५××; आपश्रौ;
आ (भुवत्) वैग ४, १४: ४.

आ-भू^०-भुव: पाय २, १७, १५;
-भू: आपश्रौ २०, ११, ९; कौस्
३९, ९^१.

आ-भूति- -ति: शाश्रौ १५, १७,
१†; -ती: बौश्रौ १५, ३६:
२०; -ते: शुश्र २, ३६६^१.

आभूक^१-कम् अप्रा ३, ४, १†.

आ-भूत-संप्लव^१-वम् काध
२८१: ६^१!

†आ/भूष्, आ(भूषु^१) शाश्रौ १०,
६, ६; १८, १०, ९; वैताश्रौ ३९,
१०; निसू ६, ७: ४७; ऋअ २,
५८, ९०; ओ (आ-उ)...भूषत
ऋप्रा ८, ५०; आ(भूषत) साअ

१, २६९^१.
†आ/भृ(=ह), आभरत: भाश्रौ
८, ५, ३६; आभरन्ते वैश्रौ २, १:
१२; आभरामि आपश्रौ ५, १,
७; आभरामसि आय १, १,
४; आभरत्^१ शाश्रौ १, ६,
२; आपश्रौ २४, १२, ६; आ-
भर, > रा आश्रौ २, ८, ३××;
शाश्रौ; माश्रौ १^१, ३, ५, १५; ४,
१, १८; आपमं १, ८, १^१; कृया
४, ४; ५; १२, ६; आ...
भर आश्रौ ७, ८, १; शाश्रौ;
वैताश्रौ २८, १९^०; अप ३२, १,
२५^०; कौस् १८, १४^०; ४१, ८^०;
अअ ५, ७^०; अप २: ४२^०; या
६, ३२; आ (भर) आश्रौ
१, ६, १; शाश्रौ १, ८, १२;
९, १२, २; वाश्रौ २, १, ६, ८;
हिश्रौ २१, २, ४८; जैश्रौप १६;
ऋअ २, १, ८; साश्र १, १२९;
अश्र २०, १०८; आभरतम्
आश्रौ ३, ७, १३; अप्राय ६, ९;
आभरन् आपश्रौ ५, २६, ५; २४,
१२, ६; भाश्रौ ५, १८, १; वाधूश्रौ
४, १०३: ९^१; सु ३१, ९६; आ...
अभरत् या ७, २६६^१; आभरन्
आश्रौ ५, १३, १४६; आम्रिण १,
५, १: १५; आ(आ-अ) भर:
आश्रौ ७, ४, ३; शाश्रौ १८, ८, १.
आ(विभ्रति) आश्रौ २, १६, ७;
शाश्रौ ३, १३, १७.
आजभार बौश्रौ २४, १३: ११;
आ...जभार आश्रौ १, ६, १;

a) पाभे. वैप २, ३खं. आहरन्ती मंत्रा १, ६, २७ टि. द्र. । b) अर्थ: व्यु. च ? । c) = जाति-
विशेष- । व्यु. ? । < /भाष् इति [पाउभो.] । d) सपा. आभु: < > मातु: इति पाभे. । e) नाप. । f) सपा. कौस्
२४, १३ विभे. । g) = ऋषि-विशेष- । h) वैप १ द्र. । i) अस. > षस. । j) ०भूद^० इति पाठ: ? यनि. शोध:
(तु. वैप ३ [शि ४, २७]) । k) परस्वरं पाभे. (तु. वैप १, ६७१ s, u) । l) पाभे. वैप २, ३खं. आभ्रियात् माश्र १, ५, १, २०
टि. द्र. । m) पाभे. वैप १, ६७२ j द्र. । n) पाभे. वैप १, ७४४ d द्र. । o) पाभे. वैप १, ६७३ a द्र. ।

आ(जभार) वैग्य ३, १७ : ७;
 आ-भरण^a- -गम् काश्रौसं ६ : ६^b;
 वैग्य; -णात् भाश्रौ ८, ५, २;
 १५, ९; -णानि अप ४, १, १५;
 आज्यो ५, ७; -णेषु अप ७०^c,
 २३, १३.
 आभरण-कुण्डल-मणि- -णीन्
 वैग्य २, १४ : ४.
 आभरण-भूषि(त>)ता- -ताः
 वृदे ३, १४६.
 †आ-भरत्- -रन्तः आश्रौ २, ५,
 ९; आपश्रौ.
 †आभरन्ती- -न्ती^c आपमं
 २, २, ९; बौग्य २, ५, १३; भाग्य
 १, ६ : ८; जैग्य १, १२ : ४६.
 आभरद्-वसु^d- -वसुः आश्रौ
 १२, १५, २; -वसो आपश्रौ
 २४, १०, ५; हिश्रौ २१,
 ३, १४.
 आभरद्भव- -व बौश्रौप्र
 ४७ : ७.
 आभरद्भसु-वत् आपश्रौ २४,
 १०, ५; बौश्रौप्र ४७ : ७; हिश्रौ
 २१, ३, १४.
 आ-भृत- -तः आपश्रौ १७, १८, १९.
 आभ्यन्तर- अभ्यन्तर- द्र.
 आभ्याज्य- २अभ्याज्य- द्र.
 आभ्युदयिक- अभ्युदि(द्/इ) द्र.
 आ/आश्रु > आ-आशिन्- -शिनम्
 बौश्रौ ६, २६ : १६; २९ : ८;
 ९, १ : १४; ५ : १६; १९; २१;
 १०, १ : १३.
 आभ्य- ३अभ्र- द्र.
 आम^e- आमः पा ८, १, ५५; पावा ८,
 १, ७२.

१आम,मा^f- -मः आपश्रौ १२, १२,
 १३; हिश्रौ ८, ३, ४२; -मम्
 माश्रौ ४, ८, १; माग्य २,
 १४, २८; वैग्य २, ८ : ४;
 अर ६७, ४, १; आपध १,
 १८, १; ३; बौध १, ३, ९;
 वैध २, १५, ८; ९; हिध १, ५,
 ७१; ७३; -मा आपश्रौ १४, ३३,
 ९; हिश्रौ १५, ८, ४२; आमिग्य
 २, ५, १० : ३; ११ : २; हिपि
 १५ : ४९; -माः बौश्रौ २, १० :
 ३४९; -मान् माग्य २, १४, २८^g;
 -माम् आमिग्य २, ५, १० : ११;
 ३३; ३६; ११ : २५; -मासु
 शाश्रौ १८, ११, २; बौश्रौ १३,
 ११ : ६; ११; काग्य ६३, ११;
 जैग्य २, १ : १८; १९; -मेन
 गौध ७, २१; मौसू १०, ४, ७;
 -मैः बौग्य २, ११, ५५; बौपि ३,
 ६, ९.
 आम-दातृ- -ता आमिग्य ३, १२, १ :
 १५.
 आम-प(क>)का^h- -काम् आपश्रौ
 १९, २७, २; बौश्रौ १३, ३७ : ३;
 हिश्रौ २२, ६, १५.
 आम-पात्रⁱ- -त्रम् कौसू ४१, ७;
 ४८, ४३; -त्राणि कौसू १४, २९;
 -त्रे कप्र ३, २, ६; कौसू २६,
 ३२; वाध ६, ३१.
 आमपात्र-स्थ- -स्थः हिपि १५ :
 १६.
 आम-पिशित^j- -तम् शाग्य ६, १, ३.
 †आम-पेष^k- -षाणाम् आपश्रौ ८,
 ५, ४०; ४२; भाश्रौ ८, ६, १;
 वाश्रौ १, ७, २, १८; हिश्रौ ५, २,

३३.
 आम-म(य>)या- -याः बौपि १,
 १४ : ५; आमिग्य ३, ८, १ : ५.
 आम-मांस^l- -सम् वाध १४, २८;
 -सेन आपध १, ११, ४; हिध
 १, ३, ६१.
 आममांस-मधु-रुवण- -णानि
 आपध १, १७, १५; हिध १, ५,
 ४७.
 †आम-सृच्छ (<श)कला(ल-
 आ)दि^m- -दिना कप्र १, १०,
 १३ⁿ.
 आम-यव-पिष्ट^o- -ष्टानाम् काठश्रौ
 २५; माश्रौ १, ७, ४, १.
 आम-शिरस्^p- -राः काशु ७, १०.
 आम-श्राद्ध^q- -द्धम् आमिग्य ३, १२,
 १ : १६; -द्धेषु विध ७३, ५.
 आमश्राद्ध-विधान- -नस्य कप्र
 ३, १०, ११.
 आमश्राद्धा(द्व-अ)शन- -ने
 विध ५१, ४९.
 †आमा(म-अ)द्^r- -मात् बौश्रौ २४,
 २६ : १; -मादम् आपश्रौ १,
 २२, २; बौश्रौ १, ८ : ४; २०,
 ८ : ३; २४, २६ : १; भाश्रौ
 १, २४, २; माश्रौ १, २, ३, २;
 वाश्रौ १, ३, १, १.
 आमा(म-आ)शय- -यः विध ९६,
 ९१.
 २आम-> †आमि^s, आमयति
 बौश्रौ १३, ३१ : ३; भाग्य १,
 २५ : १२; हिग्य २, ४, ५.
 आममत् हिग्य १, १७, २.
 आमय^t- पाउवृ ४, ९९; -यस्य
 पावा ५, २, १२२.

a) =अलङ्कारण-। उप. करणे कृत्। b) पूर्वेण संधिरार्षः। c) पाभे. पृ ५२० f द्र.। d) =श्रुति-विशेष-। बस.। e) वैप १ द्र.। f) कस.। g) पाठः ?। कस. > षस. > बस.। h) यनि. BI.; आममन्तर्जला इति जीसं., आमम् अच्छजला इति Sch.; आमम् अर्द्धं जला इति मुसं.। i) वैप. १, ६७५ ० द्र.। j) विप.। बस.। k) नाप.। तुस.।

आमय-तस्(ः) अप्राय २,२^१.

आम(य>)या-विन्- पावा
५, २, १२२; -विनः काश्रौ
२३, १, १७; आप्रथौ १६, ७, ५;
बौश्रौ १४, २२ : २३; माश्रौ ५,
१, ५, ४६; वाश्रौ २, १, २, ८;
वैश्रौ १८, ५ : ५; हिश्रौ ८, ४,
६; ११, २, ३; -विनम् आप्रथौ
१४, १४, ९; २२, ४, २; ६, १०;
१०, ६^१; माश्रौ ५, १, ६, १९;
हिश्रौ १३, ३, ४२; १७, २, १, ५७;
४, ४; लुम् ३, १६ : १३; अप्रा
३, ४, ११; -विना आप्रथौ १,
९, १३; भाश्रौ १, ९, ६; -वी
आश्रौ २, ८, ४; आप्रथौ.

आ-मध्यंदिन- नम् बौश्रौ १७,
३९ : २९; आमिष्ट १, ३, २ : ६.

आ√मन्, म्ना(अभ्यासे), आमनति
लाश्रौ १०, ६, ११; ७, ५; आम-
नन्ति शाश्रौ १५, १५, १०; वैश्रौ;
आमनेत् भाश्रौ ६, १५, ७;
१२.

आम्नायन्ते भाश्रौ १, १, ९.

आ-म्नात्, ता- पाग ५, २, ८८^१;
-तः आप्रथौ ६, १३, १०××;
बौश्रौ; -तम् आप्रथौ ८, ७,
१८××; माश्रौ; -ता आप्रथौ
१९, ४, १३; बौश्रौ; -ताः
आप्रथौ ८, १५, १५××;
काश्रौसं; -तात् मीस् ९, १, ४९;
-तानि आप्रथौ ११, ११, १२××;
माश्रौ; -ते आप्रथौ १९, १८, ७;
माश्रौ; -तेन मीस् ९, ४, ९;
-तेषु मीस् २, १, २२^१; ३२.

आम्नात-स्व- स्वात् आश्रौ १,
१, ३; मीस् ९, ४, १८.

आम्नात-श्रुत->०तिन्-
आम्नात- टि. द्र.

आम्नातिन्- पा ५, २, ८८.

आ-म्नान- नम् शाश्रौ ६, १, २;
मीस् १०, ५, ३९^१; ७७; -नात्
काश्रौ २३, १, ४; लाश्रौ ९, ७,
२; १०, ३, ४; मीस् १०, ४, ६.

आम्नान-सामर्थ्य- र्थ्यात् मीस्
४, ३, १०.

आ-म्नाय- -यः गोष्ट १, ६, १२;
शंघ १; आपध २, २४, १; गौघ
१, ५१; हिध २, ५, १६६; मैअ
३; -यस्य मैअ ५; मीस् १,
२, १; -यात् माशि १४, ७;
-ये आश्रौ ३, ६, ७; वौश्रौ २६,
१० : २१; -यैः गौघ ११,
२२.

आम्नाय-करण- णम् माशि
१४, ८.

आम्नाय-द्वैत- -तेन निस् ३,
१० : १७.

आम्नाय-धर्म- ०मिन्- ०मि-त्व-
-त्वात् शुप्रा १, ४.

आम्नाय-प्रत्यय- -यः कौस् १, २.

आम्नाय-वचन- नम् मीस्
११, २, ४१; -नात् या १, १६;
७, २४; मीस् १२, ४, ३६.

आम्नाय-विधि-दर्शन- -नात्
आज्यो १४, १२^२.

आम्नाय-शब्द- -ब्दानाम् पावा
५, २, ५९.

आम्नाय-शास्त्र-संपन्न^१- -न्नम्

माशि १४, ९.

आम्नाय-सार-विद्^६- -वित्
माशि १४, ९.

ॠआ-मन^१- -नम् आप्रथौ १९, २३,
९; बौश्रौ १३, ३० : १३; हिश्रौ
२२, ४, २०; -०नस्य बौश्रौ
१३, ३० : १४; माश्रौ ५, २,
१, १६; हिश्रौ २२, ४, २०;
चाअ १२:२; -ने हिश्रौ २२, ४,
२०; मीस् १०, ४, ७.

आमन-पात्र^१- -त्रम् माश्रौ ५, २, १,
१५; -त्रेण माश्रौ ५, २, १,
१६.

आ-मनस्^१- -नसम् अप्रा ३, ४, ११^१.

आ√मन्त्रि (<मन्त्र-), आमन्त्रयते
शाश्रौ १६, १८, १; काश्रौ; या ९,
३०; आमन्त्रयते हिश्रौ ५, २, ९;
आमन्त्रयन्ते जैश्रौ ३ : १; ५ :
१; ८ : १; आमन्त्रये सु १९,
३; आमन्त्रयै पावा ३, ३, १६१;
आमन्त्रयीत् भाश्रौ १०, ७, १५;
आमन्त्रयेत् माश्रौ ५, २, १५,
३१; हिश्रौ १४, २, १४; गौघ १,
५२; आमन्त्रयेत् विध ७३, १;
आमन्त्रयोरन् हिष्ट २, ४, १४;
आमन्त्रयेरन् आमिष्ट २, १, ५ :
३४; भाष्ट १, २६ : १२.

आ-मन्त्रण- -णः^१ भाश्रौ ८,
३, १९; हिश्रौ ८, ७, ४८;
-गम् माश्रौ १, ५, ६, १८^२;
गोष्ट; -गानि^१ शुअ १, ६३०;
-णाय माश्रौ १, ५, ५, ६;
-णे माश्रौ १, ५, ५, १७; वैश्रौ
८, ७ : १३; हिश्रौ ५, १, ४०;

a) पाभे. वैप १ परि १आमयत् वै २, ५०, १ टि. द्र.। b) सपा. आमयाविनम्<>सोमवाभिनम् इति पाभे.। c) आम्नातश्रुत- इति पक्षे भाण्डा.। d) तु. प्रयासं। e) म्नातम् इति प्रयासं.। f) कस.> लृस.। g) षस.>उस.। उप.<विद् [ज्ञाने]। h) वैप १ द्र.। i) =होमीय-पात्र.। j) =मन्त्रविशेष-। गस. उप. करणे ल्युट् प्र.।

२४, ५, ३; जैश्रौका ९०; -गेन हिश्रौ २१, २, ८; -णेषु आपश्रौ ३, १९, २; हिश्रौ १, ४, ५१; २, ८, १२.
 भामन्त्रणा(ण-आ)दि-दि वाश्रौ १, ७, २, १५.
 भामन्त्रणीय- -यात् भाश्रौ ५, २०, २; -यान् वाधूश्रौ ३, ४६; ७.
 भा-मन्त्रयमाण- -णः वाधूश्रौ ४, ७५; ६.
 भामन्त्रयां/कृ, भामन्त्रयाञ्चके शाश्रौ १५, १८, १; २०, १; २५, १; वाधूश्रौ ३, ४६; ८; ४, ३७; ८.
 भा-मन्त्रित, ता^०- -तः आश्रौ १, १, ४ × ×; शाश्रौ; -तम् शुप्रा २, १७ × ×; अप्रा; पा २, ३, ४८; ८, १, ५५; ७२; -तया निसू ३, ९; ४२; -तस्य निसू ३, ९; १४; पा ६, १, १९८; ८, १, ८; १९; पावा २, १, २; -ता निसू ३, ९; १०; ५३; -तान् शुप्रा ६, १२; अप्रा १, १, २३; २८^१; -तान् कप्र १, २, १; -तानि अप्रा १, ३, ७; -ताम् निसू ३, ९; ११; -ते वाश्रौ १, १, २, १४ × ×; पा २, १, २; ८, १, ७३; पावा ८, २, १०७; -तौ शाश्रौ ५, १९, १.
 भामन्त्रित-ज- -जः ऋप्रा १, ६८.
 भामन्त्रित-तुल्य-वृत्ति^०- -त्ति अप्रा १, १, २८.

भामन्त्रित-युष्मदस्मत्-तिङ्-निघात- -ताः पावा ८, १, ७२.
 भामन्त्रित-वत् शुप्रा ६, १.
 भामन्त्रित-स-स्वर^०- -रम् भासू २, १०.
 भामन्त्रित-स्वर- -रेण अप्रा १, १, ५.
 भा-मन्त्र्य काश्रौ १९, १, १८; आपश्रौ; भामन्त्र्यऽभामन्त्र्य काश्रौ ४, ४, १६; २०, ६, १८.
 आ-मर्यादा-स्थ^०- -स्थयोः भासू २, २१.
 आमल-(>ली-) आमलक-टि. द्र. आमलक^०-(>की पा.) पाग ४, १, ४१^१; पाउवृ २, ३२; -के विध ९९, १२; -कैः शोध ४४८.
 आ/मह, भामहयाम वीगृ ३, ७, २१.
 आमहय्यव- अमहय्यु- द्र.
 आमहीय- अमहीय- द्र.
 आमहीयव- अमहीयु- द्र.
 आमही(य >)या^०- -याम् काश्रौ १०, ९, ८.
 आमात्य-, ^०वसव-, ^०वस्य- प्रसृ. १२अम- द्र.
 आ/मि(हिंसायाम्), भा...मिनन्त बौश्रौ १३, ४०; ४; ऋप्रा २, ६३; तैप्रा १०, १३.
 भा-मिना(न >)ना- -ने^० या २, २०^१कृ.
 आमिक्षा^१- पाउभो २, ३, १९१; -क्षया आश्रौ १७, २४, १ × ×; बौश्रौ; -क्षयोः बौश्रौ २१, २; २५ × ×; भाश्रौ; -क्षा काश्रौ ७, ४, २५ × ×;

आपश्रौ; -क्षाः काश्रौस २८; १८; -क्षायाम् आपश्रौ २४, ३, ३९; -क्षाम् आपश्रौ ८, २, ९ × ×; बौश्रौ; -क्षयाः काश्रौ १९, १, ७; आपश्रौ; -क्षायाम् काश्रौ ४, ३, १० × ×; आपश्रौ; -क्षायै बौश्रौ ५, १; २२ × ×; भाश्रौ; -क्षे भाश्रौ ८, ५, २२; माश्रौ १, ७, ३, ११; ४, ६; हिश्रौ ५, २, २८.
 भामिक्षा-कर्मन्- -र्म आपश्रौ ८, ५, ३२.
 भामिक्षा-पय(स्या >)स्य^१- -स्यम् आपश्रौ ८, ५, ३३.
 भामिक्षा-मध्य- -ध्ये माश्रौ ५, १, ७, २०.
 भामिक्षा(क्षा-अ)र्थ, र्था- -र्थम् वैश्रौ १५, ४; ९; आमिगृ ३, ७, ३; ९; बौपि २, १, ४; -र्थां हिश्रौ ८, १, ४९.
 भामिक्षा-वत् आपश्रौ ८, ५, ३९; १२, ४, ११.
 भामिक्षा-वत्- -वताम् बौश्रौ १८, १८; १७^१.
 भामिक्षा-व(पा >)प^०- -येन वाश्रौ १, ७, ५, २९.
 भामिक्षा-वर्जम् वैश्रौ १६, २; २; १०; १२.
 भामिक्षे(क्षा-इ)ष्टि- -ष्टिः वैताश्रौ ३०, २४.
 आमितौजि- -अमित- द्र.
 आमित्र-, ^०त्रायण-, ^०त्रीय- अमित्र- द्र.
 आमिधी-(>धी-मत्-) आमिधी-टि. द्र.

a) विप. च पारिभाषिक-संज्ञा- [पा. प्रसृ.] च । b) विप. । त्स. > बस. । c) कस. > बस. । d) विप. । प्रास. > उस. । e) नाप. । व्यु. ? < आ/मल्ल इति अभा. । f) आमल- इत्यपि भाण्डा. । g) = ऋग्-विशेष- [ऋ ८, ४८, ३] । h) सप्र. भामहीयाम् < > महीयाम् इति पाप्मे. । i) वैप १, ६७६ r द्र. । j) वैप १ द्र. । k) समाहारे द्रस. ।

आ-मिश्र^a - श्रस्य पावा ६, १, ८४;
-श्राणि निघ ३, १२; या ३,
१३.

आमिश्र-स्व- स्वात् पावा ६, १,
९.

आमिष^b - षम् पाउ १, ४६; -पस्य
शंघ ३९५.

आमिषी^c - (> आमिषी-मत्- पा.)
पाग ४, २, ८६^d.

?आमुकुष्मिक^e - कम् वीश्रौ १५,
१८ : ४.

आ/मुच्, ङ्च्, आमुञ्जते, आमुञ्जेत्
आपश्रौ ७, २८, ४.

आ-मुच्य माश्रौ २, १, २, ७; वैगृ २,
१५ : ५.

आ/मुप् > आ-मोषिन्- पा ३, २,
१४२.

आमुष्मिक-^f, °व्यकुलक-^g, °व्य-
कुलिका-^h, °व्यकुलीन-ⁱ, °व्य-
पुत्रक-^j, °व्यत्रिका-^k, °व्यायण-
अदम्- द्र.

†आ/मृत्, आ...मृत्वाति या १०,
१५^l.

आ/मृत् प्रमृ. आ/मृत् द्र.

आम्ब^m - पाउभो २, २, २२०.

आम्बरीष-ⁿ, °षपुत्रक-^o अम्बरीष-
द्र.

आम्ब-पु^p - पा ८, ३, ९७.

आम्बिकेय- अम्बा- द्र.

आम्भसिक- १ अम्भस्- द्र.

आम्भि- २ अम्भस्- द्र.

आम्भृणी- अम्भृण- द्र.

आम्भ^q - पाउ २, १६; पाग ५, १, १२३;
२, १३१; -अस्य आपश्रौ १८,
११, ३^r; हिश्रौ १३, ४, १६;
अप २३, १, ५; -आन् शंघ
२२०; -अ आपश १, २०, ३;
हिध १, ६, १७.

आम्भ-पालाश-बिल्व- -ल्वानाम्
माशि ४, १; याशि १,
३५.

आम्भिन्- पा ५, २, १३१.

आम्भिमन्- पा ५, १, १२३.

आ/म्भेद्, ल्, आम्भेलयति शाश्रौ
९, ७, २.

आम्भेडित- -तम् शुप्रा १, १४६;
याशि २, ८५; पा ८, १, २; २,
९५; -तस्य पा ६, १, ९९; -ते
शुप्रा ४, ९; ६, ३; याशि २, ५४;
५७; पा ६, १, १००; ८,
२, १०३; ३, १२; पावा ६,
१, ९८; -तेषु पावा ८, १,
५७.

आम्भेडित-सदश- -शानि अप्रा
३, १, ६.

आम्भेडित-समास- -सस्य अप्रा
३, १, ५.

आम्भेडिता (त-अ) न्त- -न्तेषु
पावा २, ३, २.

आम्भ्य- अम्भ- द्र.

आय- ए(आ/इ) द्र.

आ-यक्ष्यमाण- आ/यज् द्र.

आ/यच्छ्, यम् (यमने)^k, आयच्छति
आपश्रौ २, ८, ४; माश्रौ २, ८,

५; कौस् ४७, २२; आयच्छामि
कौस् ४७, २२^r; †आयच्छस्व
आश्रौ २, ५, १२^r; शाश्रौ २, १५;
५; ८, २४, १; आयच्छेत् दाश्रौ
५, ४, १२; ११, १, ६; लाश्रौ २,
८, २२×.

आयमत् हिपि १८ : ४; †आ-
...यमत् आश्रौ ७, ८, १; ८,
११, ४^r; शाश्रौ ९, २३, १२; १०,
९, १७^r; १२, ११, १६; †आ,
(यमत्) शुभ्र २, १३८; साश्र १,
८८.

†आयामयन्ति शुप्रा ३, १२९;
आ...यामय ऋप्रा ९, ३२.

आ-यत, ता- -तः काशु ७, ९; -तम्
पागृ १, १६, २^r; आपशु ७, १;
काशु ७, ११; हिशु २, ४६;
-तया बौश्रौ १४, १० : २०;
-ता वैताश्रौ ११, २६; -ताम्
बौश्रौ २, ६ : ३०; १४, १० :
१९.

आयत-चतुरस्^m - स्त्रम् आगृ २,
८, १०.

आयत-प्राण- -णः कप्र २, १,
८; वाध २५, १३; वीध ४, १,
२८; विध ५५, ९.

आयत-(स्तु >) स्तु- पावा ३, २,
१७८.

आयत-स्थ- -स्थाः अप ७०^r,
११, २७.

आयता (त-अक्ष >) श्रा^o - श्रा
अप ५८^r, १, ९.

a) विप. । प्रास. । b) = मांस- । व्य. ? । c) = ओषधि-विशेष- [तु. पागम.] ? । व्य. ? । d) °मिषी-
इति पाका. । e) = अन्न-विशेष- [तु. सप्र. आपश्रौ २०, ७, ८ यवस- इति] । व्य. ? । f) वैप १ द्र. ।
g) = धान्य-विशेष- । <√अम् इति पाउभो; <नाम्ब- इति [पाग ६, १, ९] । h) = अम्ब-ष्ठ- । (वैतु. PW. प्रमृ.
<अम्ब- इति ?) । i) व्य. ? । <√अम् इति पाउ. । j) °मस्त्ये इति पाठः ? यनि. शोषः (तु. हिश्रौ.
भाष्यम्) । k) पा १, ३, २८; ८९ । परामृष्टः द्र. । l) वैप १, ६७८ m द्र. । m) कप्र. । °वं च° इति
जीसं. । n) विप. । बस. ।

आयता-त्व- -त्वम् नाशि १, ७, १२.

आयता(त-अ)वनत- -तम् वैगृ ५, १५ : १३.

आ-यम(न >)नी^१ - नीः आपमं २, ११, १८.

आ-यम्य काश्रौ ८, ३, १२ × ×; काठश्रौ.

आ-यम्यमान- -नम् या २, १०.

आ-याम- पाग ५, २, १३६; -मः वैश्रौ ११, ७ : १३; आपशु १९, १; हिशु १, ११; ६, १६; तैप्रा २२, ९; कौशि ३; पा २, १, १६; -मम् वैश्रौ ११, ७ : १; ३; आगृ ४, १, ९; आपशु १, ७; हिशु १, ११; -मस्य आपशु १, ७; -मे पा ५, ४, ८३; -मेन जैगृ २, ३ : ११; -मौ वैश्रौ ११, ७ : ७.

आयाम-तसः (:) आपश्रौ १४, ६, ११; हिश्रौ ९, ८, २८; आपगृ १, १९; आपशु १८, ३; हिशु ६, ७; १०.

आयाम-तृनीय- -येन बौशु ३:३.

आयाम-मादवा (व-अ) भिघात- -ताः शुप्रा १, ३१.

आयाम-वत्- पा ५, २, १३६.

आयाम-वाच्^२ - -वाचम् निसु ४, ८ : ३७.

आयाम-विभ्रम्भा(म्भ-आ)क्षेप- -नैः ऋप्रा ३, १.

आ-यामिन्- पा ५, २, १३६.

आयच्छसे^३ शांश्रौ १०, १५, ६५.

आ/यज्, ऋआयजताम्^४ आश्रौ १, ६, ५; शांश्रौ १, ९, २; आयजस्व आपश्रौ २४, १३, ३५; आयज

आश्रौ १, ३, २२५; आयजऽआयज वाश्रौ १, १, १, ४७५; आयजन्त या ६, १५; आयजेयाताम् माश्रौ ५, १, ३, २७५^५.

आयेजे पावा ६, ४, १२०; आ... अयष्ट वाधूश्रौ ३, ४४ : १५.

आ-यक्ष्यमाण- -णः माश्रौ १, ५, ६, १०.

आ-यज- > °जिष्ट- -ष्टः तैप्रा ९, २२५.

ऋआयजीयस्- -यान् आश्रौ १, ८, ७; शांश्रौ १, १३, ३; ऋप्रा ४, ७३.

ऋआ-यजिन्^६ - -जि शांश्रौ १, १३, ३; या ९, ३६.

आ-यष्टव्य- -व्ये या ९, ३६.

ऋ(आ-इज्य >)ज्या^७ - -ज्याः आश्रौ १, ६, ५; शांश्रौ १, ९, २; माश्रौ ५, १, ३, २७.

ऋ(आ-इ)ष्ट, ष्टा- -ष्टा आश्रौ ४, ५, ७; माश्रौ २, २, १, १३; द्राश्रौ १४, २, ६; लाश्रौ ५, ६, ९; वैताश्रौ १३, २४; -ष्टाः आश्रौ ४, ५, ७; शांश्रौ ५, ८, ५; काश्रौ ८, २, ९; आपश्रौ २, १, १२; ११, १, १२; बौश्रौ; तैप्रा ८, ८; १८^८; १०, १४.

आ/यत्, आ...यतन्ते आपश्रौ ३, १५, ५५.

आयातयति आपश्रौ ११, १४, ५; बौश्रौ; या १०, २२; आयातयेत् बौश्रौ २१, १९ : २६; २७; २२, ८ : ९.

आ-यतन^९ - -नम् आश्रौ ६, १०, १३ × ×; आपश्रौ; -ऋनात् आश्रौ २, ५, २ × ×; आपश्रौ; -नानि

आपश्रौ १, ६, ११; भाश्रौ; -ने आपश्रौ २, १४, १३ × ×; बौश्रौ;

-नेभ्यः बौश्रौ २७, १० : ४; -नेषु आपश्रौ ५, १०, १ × ×; वैश्रौ.

आयतन-वत्- -वन्तम् बौश्रौ १३, ३४ : २; -वान् बौश्रौ १४, ५ : २३; आपगृ २, ४, १० : ३७५.

आयतनवती- -तीः बौश्रौ १४, ५ : १७; १८; २२.

आ-यत्, त्तः- -त्तम् गौध ८, २; -त्ता कौशि ५१^९.

आ-यत्य बौश्रौ १०, २३ : २५; २४ : ३; ५; ७; वैश्रौ १८, १४ : ३९.

आ-यातन- -ने बौश्रौ २०, ११ : १३; २१, १९ : २६; २४ : १; २२, ८ : ८; १० : १०; १५ : ३.

आ-यातयत्- -यन् बौश्रौ १४, १४ : २५.

आ-यात्य बौश्रौ १४, १४ : ३४; २० : १४.

आ-यत्- ए(आ/इ) द्र.

आ-यत्- प्रभृ. आ/यच्छ् द्र.

आयति^{१०} - -ती अप ४८, ८१^{१०}; निघ २, ४.

आयथातथ्य- अयथातथ- द्र.

आयथापुर्थ- अयथापुर- द्र.

आयान् वाश्रौ २, १, २, २२.

ऋआ(आ-अ)यन^{११} - -नाय^१ आपश्रौ २०, ६, २; ११, २; बौश्रौ १५, ६ : २३; शुप्रा ५, १८; -ने आपश्रौ १३, २०, १; बौश्रौ १०, २४ : १८; बौगृ ३, ५, १८; कौस् ५२, ५; अत्र ६, १०६.

२भा(आ-अ)यन- ए(आ/इ) द्र.

a) विप. (२अप्-). उप. कर्तरि ल्युट् प्र.। b) विप.। बस.। c) पाठः? आयक्षसे (तु. मै १, ९, १ प्रभृ.) वा आयक्ष्यसे (तु. तैप्रा ३, २, १) इति वा शोधः संभाव्यते (तु. C.)। d) सपा. °जताम् <> °जेयाताम् इति पामे.। e) वैप १ द्र.। f) ष्टः इति लैवि. (तु. वैप १, ६८० e)। g) आज्यत्ता इति पाठः? यनि. शोधः। h) =बाहु-। व्यु. ? <आ/यत् इति दे.। i) वैप १, ६८१ d द्र.।

?आय-निगद^१ - द्वाः शांश्रौ ६, १, ९.

?आयतनताम् अप ४५, १, २३.

?आयन्य वाधूश्रौ ४, ९४^४ : ६.

आ-यमनी- प्रभृ. आ/यच्छ् द्र.

आयव- १आयु- द्र.

आ-यवस्^२ - बोभिः माश्रौ ६, १, ५,
३३^०.

आयवस- अयवस- द्र.

आ-यष्टय- आ/यज् द्र.

आयः-शूलिक- १अयम्- द्र.

आ/यस्^३ > आ-यास- -सः अप
५७, २, ८; -साय वीश्रौ १५, ३६:
२७^०; वीपि^४ २, २, २; ३, ९, ३.

आयास-वेदन- -नम् अप ६८,
२, ४८.

आ-यासिन्- पा ३, २, १४२.

आयस- प्रभृ. १अयम्- द्र.

आयसीय- २अयम्- द्र.

†आ/या, आयाति वीश्रौ १३, २७ :

२××; हिश्रौ; आ...याति मागृ

१, २, ३; आयान्ति पागृ ३, १०,

२३; आमिगृ; आयामि वागृ १४,

१३; आयात् या ५, २८; आ...

यातु आश्रौ २, १०, ४××; शांश्रौ;

आयातु आश्रौ ७, ४, ९; ८, ७,

२४; ८, ४; १०, ६, ९; शांश्रौ

६, १०, १०; १०, ५, २३××;

वागृ ५, २६; वैगृ २, ७, २; आ

(यातु) शांश्रौ ६, ६, ६; ऋअ;

अअ २०, ७७; आयान्तु आमिगृ

२, ४, ८ : ८; अप ४, १, १३;

आ(यान्तु) शांश्रौ ११, ६, २;

आयाहि आश्रौ १, २, ७××;

शांश्रौ; मागृ १, २, २^१; या

१४, ३०^०; आ...याहि आश्रौ

३, १२, २७××; शांश्रौ; आया (हि)

जैश्रौका १५२; आ(याहि) आश्रौ

६, ४, १०; ७, १२, ७^२; शांश्रौ;

आयातम् आश्रौ ३, ८, १××;

शांश्रौ; आ...यातम् ऋप्रा ८,

४५; आ(यातम्) आश्रौ ३, ७,

१३××; शांश्रौ; (आ) यातम् या

६, ७; आयात शांश्रौ ३, ५,

११; आमिगृ; हिगृ २, १०, ५^६;

कौस् ८३, २७^६; अअ १८, ४^६;

आ...यात या ११, १४; आ-

(यात) ऋअ २, १, ८८^०.

आययो या २, २४; आययुः

ऋप्रा १८, २०; आ(यासत्)

शांश्रौ १०, २, ५; १२, ३, ९;

ऋअ २, ४, २०.

आयापयति कौस् ८३, २७^६.

आ-यात् -यान्तम् वाश्रौ २, १, १,

८; द्रागृ.

आयान्ती-न्ती हिगृ २, १७, २^०.

आ-यात्, ता- -तः कौस् ४२, ८;

-ता कप्र २, १०, १२.

आ-यापन- > णा (न-आ) दि-

-दीनि कौस् ८७, २८.

आ-याय काश्रौ २०, ५, १५.

आ-यायिन्- पाग ३, ३, ३.

आ-यातन-प्रभृ. आ/यत् द्र.

आयाथातथ्य- अयथातथ- द्र.

आयाथापुर्त्य- अयथापुर- द्र.

आ-याम- प्रभृ. आ/यच्छ् द्र.

आयावसीय- अयावस्- द्र.

आयास्- पाउना ४, २२९.

आयास्य- अयास्य- द्र.

आयिन्- ✓इ(बधा.) द्र.

आ/यु (मिश्रणे), आयौति माश्रौ १,

७, ६, २०; ८, ५, २२; २, १, १,

३५; मागृ १, ९, १४; २, १, ५;

†आ...युवसे वीश्रौ १८, १७ :

२३; †आ(युवसे) आपश्रौ २२,

२८, २१; हिश्रौ २३, ४, ६०.

आ-यवन^५ - नम् माश्रौ १, १, २,

२; ११; कौस् ८७, २४^०; अअ

११, ३^०; -नेन शांश्रौ १२, १८,

१^०.

आ-युवान- -नः माश्रौ २, ३, ६, ४.

आ-यूय > या या ८, ३^०.

†१आयु^६ -यवः आश्रौ ४, ६, ३;

शांश्रौ ५, ९, १६; ग्यामिगृ २, १,

५ : ११; निघ २, ३; -यवे

आपश्रौ १६, २९, २; वैश्रौ १८,

२० : २५; हिश्रौ ११, ८, ३;

चाअ ३९ : ३; -युः काश्रौ ५,

१, २५; आपश्रौ ७, १२, १४;

वीश्रौ^७ ४, ५ : ९; १८, ४४ : २१;

४५ : ३१; भाश्रौ ७, ९, १५;

माश्रौ १, ७, १, ४०; वाश्रौ १, ६,

४, ९; वैश्रौ ८, ५ : १४; १०,

१० : ५; हिश्रौ ४, ३, ११; कौस्

६९, २०; ऋअ २, ८, ५२; साअ

१, ३००; २, १०२७; अअ २०,

११९^१; या ९, ३; शुप्रा २, ६०;

-युम् वीश्रौ १८, ४४ : २०;

-युवः आमिगृ १, ५, २ : ३९;

वैगृ १, १८ : ३; शुप्रा ४, ७८;

५, ३७; -योः शांश्रौ १४, ५७,

१२^१; काश्रौ १७, १२, २४;

आपश्रौ १७, ३, ८; वीश्रौ १०,

a) समासः ?। पू. अर्थः ?। =प्रन्थ-विशेष- इति भाष्यम् । b) वैप १ द्र. । c) पाभे. वैप १, ६८१

h द्र. । d) पा १, ३, ८९ परामृष्टः द्र. । e) तु. B. । f) पाभे. वैप २, ३खं. आयातु तैश्चा १०, २६, १ टि. द्र. ।

g) पाभे. वैप १, ६८३ e द्र. । h) उर्वशीपुल्लरवसोः पुत्र- । i) मायुः इति पाठः ? वनि. शेषः ।

j) विशेषः वैप १, ६८४ B द्र. ।

४६ : ३७; २६, १६ : ५५^३;
 माश्रौ ६, २, ३, १२; वैश्रौ १९,
 ४ : १७; हिश्रौ १२, १, ४३;
 जैश्रौ ६ : ३; जैश्रौका ७५;
 द्राश्रौ २, ३, ४; लाश्रौ १, ७, ४;
 शुश्र २, २४३; या ६, २१; १०,
 ४१०; ११, ४९०; अत्रा ३, ४,
 १.
 आयव^१- -वम् बौश्रौ १८, ४४:
 २२.
 †आयोष्-कृत्- -कृते^२ आपश्रौ १६,
 २९, २; वैश्रौ १८, २० : २६;
 हिश्रौ ११, ८, ३.
 †आयोष्-पत्वन्- -त्वने^३ आपश्रौ
 १६, २९, २; वैश्रौ १८, २० : २६;
 हिश्रौ ११, ८, ३.
 †२आयु^४- पाठ १, २५; -यु आपमं
 २, ११, ३१^५; -युः वैश्रौ
 १८, २० : १९^६; आश्रिण ३, ५,
 ४ : १६; बौषि १, ३ : २५;
 हिषि ३ : ३; -युना माश्रौ १,
 ७, ३, १७; -युनि^७ आश्रौ ५,
 १८, २; शांश्रौ ८, ३, ४.
 आयु-कृत्- -कृत् (?ता) आपश्रौ ६,
 २१, ११^८.
 आ/युज् > आ-युक्त- पाग ५,
 २, ८८.
 आयुक्त-कुशल- -लाभ्याम् पावा
 २, ३, ४०.
 आयुक्तिन्- पा ५, २, ८८.
 आ-योजन- -नानाम् कौस् २३, १७;

२४, ३६; -नाय कौस् २०,
 २१.
 आयोजन-पर्ययन-प्रवपन-प्रलवन-
 सीतायज्ञ-खलयज्ञ-तन्तीयज्ञा(ज्ञ-
 अ) नहुद्यज्ञ- -ज्ञेषु मागृ २,
 १०, ७.
 आयोजनीय- -यस्य कागृ ७१, २.
 आ/युघ् > आ-योघन- -नात् या
 १०, ६.
 आ-युघ^१- -धम् माश्रौ ६, २, ४, ७;
 द्राश्रौ १०, २, ८; लाश्रौ ३,
 १०, ७; कौस् ४३, १; ५०,
 ४१^२; शंध ११६ : १९; आपघ
 १, २०, १२; २९, ६; हिघ १,
 ६, २६; ७, ६२; वृदे १, ७४; ४,
 १४३; या ७, ४; १०, ६०; १२,
 ३०; शुप्रा ५, ३७^३; अत्रा ३, ४,
 ११^४; -घा या १०, ३०^५; -घात्
 पा ४, ४, १४; -धानाम् अप ७१,
 २, १; -धानि मागृ १, २०, ३;
 अप १, ३१, ३; १८^६, १९, १;
 ४८, ७५^७; ७१, १४, ४; वृदे ३,
 ८५; निघ १, १२^८; या १०, ३०;
 १२, ७^९; -घे आपघ २, १६,
 २१; हिघ २, ५, २१; -घेषु अप
 ७०, ५, २.
 आयुघ-ग्रहण- -णम् आपघ २, २५,
 १४; हिघ २, ५, १९४.
 आयुघ-जीविन्- -विभ्यः पा ४, ३,
 ११; -वी अप ६९, ५, ३.
 आयुघजीवि-संघ- -घात् पा

५, ३, ११४.
 आयुघ-शास्त्र- -स्त्राणि अप ७०^२,
 २१, ५.
 आयुघा(घ-आ)कार-रूप^३- -पाणि
 अप ७२, ३, १४.
 आयुघा(घ-आ)गार- -रम् वृदे ५,
 १३१.
 आयुघिक- पा ४, ४, १४.
 आयुघिन- -घिनः कौस् १०४, १;
 -घिषु कौस् ९३, १२.
 आयुघि-ग्रामणी- -ण्ये कौस्
 १५, ८.
 आयुघीय- पा ४, ४, १४; -यान्
 अप १, ९, ४.
 आयुघीयक^१- -कम् बौघ १, १,
 २०.
 आयुघीय-पुत्र- -त्रः आपघ २,
 १७, २१; हिघ २, ५, ४९.
 आयुघो(घ-उ)पजीविन्- -विनाम्
 शंध २६२.
 आयुधि^३- (>^४घायन- पा.) पाग
 २, ४, ६१.
 आयुध्य- अ-बुध- टि. द्र.
 आयुस्^५- पाठ २, ११८; पावाग ५, १,
 १११; -युः आश्रौ १, ९, ५१^६ × ×;
 †शांश्रौ १, १४, १७^७ × ×; ७,
 १८, ११^८; आपश्रौ ६, २५, २;
 १०, १८, ३^९; १४, १८, १^{१०};
 १७, २३, ११^{११}; २०, १३, ४^{१२};
 माश्रौ १, ६, ३, १८; हिश्रौ १५,
 ५, २७^{१३}; आपमं १, ८, १०^{१४};

a) =एकाह- । b) विप. । तस्येदमीयः अण् प्र. । c) पाभे. वैप १, ६८९ p द्र. । d) पाभे.
 वैप १ परि. ष्मने काठ ३९, २ टि. द्र. । e) वैप १ द्र. । f) पाभे. वैप. १ परि. आयुः ऋ १०, ४५, ८
 टि. द्र. । g) पाभे. वैप १, ६८५ f द्र. । h) पाभे. वैप. १ परि. आयुषि शौ ७, १५, ४ टि. द्र. । i) पाभे. वैप १,
 ६८९ ० द्र. । j) =युद्धोपकरण- उदक- [निघ.] । व्यु. ? । गस. उप. करणे कः प्र. (पावा ३, ३, ५८) इति प्रायोवादः; वैप १
 २भा^१ टि. चद्र. । k) विप. । षस. > षस. । l) भावे बुज् प्र. (पा ५, १, १३२) । m) ऋषि-विशेष- । व्यु. ? । n) पाभे.
 वैप १, ६८७ a द्र. । o) पाभे. वैप १, ६८६ h द्र. । p) पाभे. वैप १, ६८६ g द्र. । q) पाभे. वैप १, ६९० k द्र. ।
 r) पाभे. वैप १, १३९४ h द्र. । s) वायुः इति पाठः ? यनि. शोधः [तु. सप्र. मै ४, ८, ७] ।

आयु ३, ६, ८^a; पायु ३,
३, ६^b; ऋमायु १, १, २१;
३, १^a; २; २, ८, ६^b; हिय १,
१७, ४^a; कौसू ४२, १७^c; निष
२, ७^f; या ५, ९^f; ८, २२^f;
१०, ३५; ४०^f; ११, ६^f; ३०;
३६^f; १२, ३९^f; १३, १३; १४,
३५^f; -युषः काश्रौ १२, २, २२^f;
आपश्रौ; निस्^d ७, ४ : ३८; ९,
१ : ५०; -युषम् आश्रौ १०, ३,
२६××; आपश्रौ; निस् ८, ४ :
१४^d; -युषा आश्रौ १, ३,
२३^f××; शाश्रौ; आपश्रौ १४,
१८, १^f; निस् ८, ४ : २६; आपमं
२, ६, १^f; ऋबौ^e २, १, ३४;
४, २, ११; -युषि आपश्रौ १,
१०, १; १४, ३^f××; बौश्रौ;
-ऋयुषे आश्रौ २, ४, ७; आपश्रौ ५,
११, ५; १३, ४××; आमिग २,
४, ६ : ३३; ३८^g; -ऋआयुंषि
आश्रौ २, १, २०××; शाश्रौ;
ऋया ४, ७; १०, ३५; ११,
३०.

आयुः-काम- -मस्य अप ३६, ४, २.

आयुः-कीर्ति-विवर्धन^h- -नम् अप
३०^h, १, १३.

आयुः-क्षय- -यम् अप २६, २, ८;
५८^h, ४, ३.

ऋआयुः-पति- -तिः आपश्रौ ११,
१५, १; माश्रौ २, ३, ७, २^h.

आयुःपत्नी- -०त्नी आपश्रौ ६,

२१, १ⁱ.

आयुर्-आशिष- -शिषः मीसू १०,
२, ५८.

ऋआयुर्-दा^j- -दाः^k आश्रौ २, १०,
४; शाश्रौ^l २, ११, ३; ४, १२,
१०; आपश्रौ ५, ६, ३; ६, १६,
१०; १३, १९, १०; १४, १७,
१××; बौश्रौ २, १४ : १७;
१८ : ३; ३, ८ : ६^l; ८, १८ : ११;
१३, ५ : ९; ३१ : १४; १४, १३ :
९; ११; माश्रौ ६, २, १ⁱ; माश्रौ
२, ५, ४, २०; ५, २, २, १४ⁱ; ६,
२, ३, ४; वैश्रौ २, ७ : ७ⁱ; १६, २४ :
१; १८, २१ : १४; हिश्रौ ३, २, ५५;
६, ६, १३ⁱ; ९, ५, १३; १५,
५, १; २२, ५, २; आपमं २,
२, १; कौग १, १७, ६; शाग
१, २५, ८; पायु २, ४, ७ⁱ;
आमिग १, १, २ : ३××; काग ३९,
२; बौग २, ५, ९; ३, ७, १२; भाग
१, ५ : ९××; हिय १, ३, ५^h;
अप्राय ६, ३^h; अत्र २, १३;
भाशि ३०; -दाम् आपश्रौ ८,
७, १७; बौश्रौ ८, १८ : १०; १४,
१३ : १०; वैग ६, १६ : ९.

आयुर्दा(दा-आ)दि- -दि वैश्रौ
८, १४ : ३.

ऋआयुर्-दावन्^m- -वा कौसू ७२,
१८.

ऋआयुर्-धाⁿ- -धाः^l आपश्रौ १४,
२७, ६; बौश्रौ ३, २१ : ६; माश्रौ

३, ६, २०; वाश्रौ १, ३, ६, १५;
वैश्रौ २१, १४ : ९; जैश्रौ ९ :
६; वाग ५, ३६.

ऋआयुर्-भाग- -गम् आमिग २,
७, १० : १६; १७.

आयुर्-वर्चो-बल-काम- -मः अत्र
६, ६३.

आयुर्-वेद^o- (> आयुर्वेदिक-पा.)
पाग ४, २, ६०; ४, १०२; -दः
चव्यू ४ : १०; -दम् शंघ
११६ : ३९; वैध ३, १२,
७.

आयुर्वेद-कृत्य- -त्यम् वैध ३,
१२, ५.

ऋआयुक्-छिद्- -छिद्ः आमिग २,
५, ३ : २६; वौग ३, ७,
१९.

आयुः-श्री-ज्ञान-बल(ल-आ)रोग्य-
शुभ- -भानि वैध २, ११,
५.

आयुः-श्री-ब्रह्मवर्चस- -सम् वैध ३,
१, ७.

आयुष्-कर- -०र वाश्रौ ३, २, १,
५४^p.

आयुष्-काम- -मः आश्रौ १०, २,
२७××; शाश्रौ; -मम् बौग २,
५, ५; वैग २, ३ : १; जैग १,
१२ : १; आपध १, १, २२; हिध
१, १, २३; -मस्य काश्रौ ४, १५,
१२; आपश्रौ; -माः आश्रौ ११,
२, १६; ६, १५; -मे निस् ८,

a) पाभे. वैप १, ६४२ e द्र. । b) सकृत् दीर्घम् आयुः <> पिन्वमानः इति पाभे. । c) पाभे.

वैप १, ६९० k द्र. । d) वैतु. संस्कृतां =साम-विशेष- इति । e) वैप १ प्रजुया मा २०, २२ e द्र. ।

f) ष इति पाठः? यनि शोषः । g) द्रस. > षस. । h) ष्रति^o इति पाठः? यनि. शोषः [तु.
आपश्रौ.] । i) पाभे. वैप १, ६८५ b द्र. । j) विप, नाप. (आहुति-विशेष- [आपश्रौ ८, ७, १७
प्रसृ.] । वैप १ द्र. । k) पाभे. वैप १, ६८९ i द्र. । l) पाभे. वैप १, ६८९ h द्र. ।

m) विप. । उस. उप. बनिष् प्र. । n) वैप १ द्र. । o) =उपवेद-विशेष- । षस. । p) पाभे.

वैप १ परि. आयुष्कार भै ४, ७, ३ टि. द्र. ।

८ : १८.

आयुष्काम-यज्ञ^० - ज्ञः निसू ८, १२ : १; ९, १ : ३७; -ज्ञे शाश्रौ १४, ८, ११.

आयुष्कामे(म-इ)ष्टि^० - ष्टया माश्रौ ५, २, २, १; -ष्टयाम् आश्रौ २, १०, २.

आयुष्-कामिन्- -मी आमिष्ट २, ४, ११ : २४.

आयु-ष्टो (<स्तो)म^० - पा ८, ३, ८३; -मः हिश्रौ १८, ४, ३५; न्तुस् २, १६ : १५; -ःमम् आपश्रौ २३, १२, २१; तैप्रा ६, १३; -मे निसू १०, २ : ३९.

ःआयुष्-पा^० - पाः आपश्रौ ३, ७, ६; वौश्रौ १, १९ : ३१; भाश्रौ ३, ६, १२; वैश्रौ ७, ७ : १; हिश्रौ २, ४, २९; वैगु ४, २ : ६.

आयुष्-प्रजा-पशु-काम- -मस्य वैताश्रौ ४३, ३१.

आयुष्-मत्- -मत् पावाग ५, ३, १४; शाश्रौ १७, १२, १××; आपमं २, १४, ८^०ः; पागु १, १६, ६^०ः; वौगु; -मताम् आगुष्ट, ६, ६; -मते वौश्रौ १३, ५ : ७××; आमिष्ट; -मन् मागु १, २२, ३^०ः; कौस् १७, १८; -ःमन्तः काश्रौ ९, ३, १८; १४, १७^०; आपश्रौ १६, १९, १^०; वौश्रौ; वैश्रौ १८, १६ : १०^०; हिश्रौ ११, ६, ३१^०; आपमं २, १४, ९^०; पागु १, १६, ६^०; -ःमन्तम् आश्रौ ६, ३, २२^०; शाश्रौ; वैताश्रौ २५, १४^०; आपमं

२, १४, ५^०; पागु १, १६, ६^०; वौध २, १, ३४^०; ४, २, ११^०; -मन्तौ कौस् ९६, ३, २७, ६; अप ३७, ९, ३; -ःमान् आश्रौ २, १०; ३; शाश्रौ; काश्रौ २१, ४, २५^०; आपमं २, २, ५^०; १४, ५^०; ७^०; पागु १, ६, २^०; १६, ६^०; हिगु १, ४, २^०

आयुष्मती- -ःती^० पागु १, ४, १२; १३; आमिष्ट १, ५, १, २०; कागु २५, ४; भागु १, १३; ३; मागु १, १०, ८; जैगु १, २० : १५; -ःतीः मागु १, १२, ३^०; -ःतीम् आमिष्ट ३, ९, ३; १२; वौपि २, ७, ११; मागु २, ८, ४^०; -त्यः आश्रौ ५, २, १४; शाश्रौ ६, ८, ६; वौश्रौ २७, ४ : १९; -त्या हिपि २० : ३; -ःत्याः वौश्रौ १४, ९ : २९; हिश्रौ १०, ८, ४४; जैश्रौ १९ : ५; वैताश्रौ १७, ४; कौस् १०८, २. आयुष्मत्-पत्नी- -ज्ञी आपमं १, ८, ३.

आयुष्य, व्या^० - पावा ५, १, १११; -य्यः आपश्रौ ७, २८, ८^०; आगु ४, ८, ३५; पागु ३, ८, २; भागु २, ३२ : ९; अशां १८, ८; अप ५, ३, ५; ३२, १, ९; -य्यम् आपश्रौ २१, २५, १२; वौश्रौ; -य्यम्ऽ-य्यम् आमिष्ट २, २; १ : १३; २ : १०; -व्याः^० आपश्रौ १७, ५, १३; वौश्रौ १०, ४५ : ३८; वैश्रौ १९, ५ : २६; हिश्रौ १२, २, १०; -व्याणि कप्र १, १, १६; कौस् ५२, १८; अप

३२, १, ९; -व्यान् अप १९, ७; १; -व्ये विध २०, ४३; अत्र ८, २; -व्येण आमिष्ट २, ५, ३ : ४; ३; वौगु ३, ७, २७; -व्यैः कौस् ५७, ३१; १३९, ७; अप १७, २, ८^०; ३३, ६, ६; ४६, २, १.

आयुष्य-काम- -मः अत्र ५, ३०. आयुष्य-गण- -गस्य अत्रभू २.

आयुष्यगण-वत् अत्रभू ३.

आयुष्य-चरु^० - -रुः वौगु ३, ७, १^०

आयुष्य-मद्र-भद्र-कुशल-सुखा- (ख अ)र्थ-हित- -तैः पा२, ३, ७३.

आयुष्य-वर्चस्य- -स्यौ अशां २३, २^०.

आयुष्य-वर्चस्य-स्वस्थयना(न-अ)भया(य-अ)पराजित-शर्म-वर्मन्- -र्मभिः अप ३७, ८, २.

आयुष्य-होम- -मान् मागु १, १७, २.

आयुष्यहोम-चरु- -रुः आमिष्ट २, ५, ३ : १^०.

आयुतिक- -अयूति- द्र.

आयूय आ/यु(मिश्रणे) द्र.

आयोगव- -अयोगव- द्र.

आ-योधन- आ/युध द्र.

?आयोभव्य- -व्याय शांगु १, १४, ६^०.

आ(आ/अ)र् (पूजायाम्)^०, आर्थति निघ २, १४^०.

१*आ(आ-अ)र्->ःआरित^० - -तः निघ ४, २; या ५, १५^०.

आ(आ/अ,ऋ)र्, च्छै^०, (आ) इयर्त्त>र्त्त ऋप्रा ७, ३३^०. (आ) ऋणोमि शैशि ३३६.

a) =याग-विशेष-। कस.। b) वैप १ द्र.। c) पामे. वैप १, ६८९ m द्र.। d) पामे. वैप १, ६९० s द्र.। e) पामे. वैप १, ६९० i द्र.। f) पामे. वैप १ परि. °मान् शौ ८, ५, १९ टि. द्र.। g) वैप १, ६९० m द्र.। h) पामे. वैप १, ६९० l द्र.। i) पामे. वैप १, ६९० k द्र.। j) पामे. वैप १, ६८९ i द्र.। k) पामे. वैप १, १६३९ p द्र.। l) विप., नाप.। तदस्यप्रयोजनमित्यार्थं यत् प्र.। m) =इष्टका-। n) कस.। o) सपा. °व्यचरुः <> °व्यहोमचरुः इति पामे.। p) पामे. वैप २, ३३. आयोभव्याय तैत्रा ३, ७, ७, ११ टि. द्र.। q) गतौ इति निघ.।

†आच्छेति आपथ्रौ ९, १, २५५; ८, ४; १२, २३, १२; १४, १४, १; १५, १६, ४; बौथ्रौ; आच्छेत्तः बौथ्रौ १४, २३: १७; आच्छेन्ति बौथ्रौ १४, ३: २४†; आच्छेताम् अप्राय ६, ८; आच्छेत् आपथ्रौ ९, १४, ६; बौथ्रौ २७, १३: ४; ६; ८; माथ्रौ ९, २, ९; हिथ्रौ १५, ४, १३; आच्छेयाताम् आपथ्रौ ९, १, ३१; माथ्रौ ९, २, १६; †आच्छेयुः आपथ्रौ ९, १८, १४; बौथ्रौ १४, ३: २२; माथ्रौ ३, ५, १७; वैथ्रौ २०, ३७: ३; हिथ्रौ १५, ८, १४. †आरिष्यसि वाधूथ्रौ ४, २८^१: ७; ३३: १२; ६९: ६; ७६: ८. भा(आ-ऋ)वै, ती^१ - तैः आथ्रौ ३, १४, १०; वाधूथ्रौ ३, ४३: ७; सु १०, २; १८, ३; बौपि २, ८, ११; हिपि २१: ६; वैध १, २, ८; -तैम् बौथ्रौ †१४, २३: २०; २५; २४, १३: ५; -तैयोः वैथ्रौ २०, ३: ६; -तैस्य बौथ्रौ २, १२: १७; वैथ्रौ २०, ३: ५; आग्नि ३, ५, १: ११; बौपि १, १: १०; -तानि बौथ्रौ ९, १८: १२; सु ९, ३; -तानि वैथ्रौ २०, ३: ८; -तान्य बौथ्रौ २४, १४: १०; कौसू ९४, ८; अप्राय ६, ८; -तेन बौथ्रौ १४, २३: १६. आर्त-स्वन- -ने पाग २, ११, ६. आर्तै(र्त-इ)ष्टि^१ - ष्यः बौथ्रौ १३, १: ६.

भा(आ-ऋ)ति^१ - -तिः बौथ्रौ २, ५: ६†; माथ्रौ; अप्राय ६, ८^१; -तिम् शांथ्रौ १३, ३, ४; आपथ्रौ; -तिपु बौथ्रौ २७, ५: १२; बौध ३, ४, २; -तीनाम् बौथ्रौ १५, ८: १५; -तीं कौग ३, ९, ३३^१; -त्या आथ्रौ ३, १२, १५; वैथ्रौ २०, २७: ८; -त्याम् शांथ्रौ ४, ७, ३८^१; -†व्यै कौग ५, ३, ३०; आग्नि. आर्ति-गत- -तस्य हिथ्रौ १५, १, ३२; -ते आपथ्रौ ९, १, २९; काथ्रौसे ३२: ८; माथ्रौ ९, २, १४; माथ्रौ ३, १, १३. आर्ति-ज- -जम् आपथ्रौ ९, ४, १६; माथ्रौ ९, ६, १३; हिथ्रौ १५, १, ८५; अप्राय ५, ४; -जानि बौथ्रौ २४, १६: ९. आर्त्ये (ति-अ) श्रुकरण^१ - णे काथ्रौ २५, ४, २८; ११, ३१. १*आर- भा(आ√)अर(पूजायाम्)द्र २आर^१ - -रात् आथ्रौ २, ५, ५; काथ्रौ; या ६, ७†; पाग १, १, ३७; -†रे आथ्रौ २, १०, ७^१; ४, ४, २^१; शांथ्रौ ५, ६, २^१; आपथ्रौ; बौथ्रौ ६, ९: १३^१; माथ्रौ २, १, ३, १५^१; वैथ्रौ १२, १४: १५; निघरे, २६; या १३, १. आरातीय- पावा ४, २, १०४. ३आर^१ - -रा: अप ५२, ५, ३. ४आर^१ - > √आर्थे पाग ३, १, २७. आरकूट^१ - पाग २, ४, ३१. आ√रभ्, †भा (रत्तम्) ऋअ २, ७, ५०; वृदे ६, १.

आरग्वध^१ - फि २. आरग्वध-म(य>)थी- -य्यः आपग १८, ७. आरग्वायन- > ण-बन्धकि^१ - पाग २, २, ३१. आरट^१ - (> ष्ठी- पा.) पाग ४, १, ४१. आरटव^१ - (> आरटवायनि-पा.) पाग ४, १, १५४^m. आरट्^१ - -टान् बौथ्रौ १८, १३: १; बौध १, १, ३०. आरट्व- आरटव- टि. द. आरट्वायनि^१ - > णि-चान्धनि-, णि-बन्धकि-, णि-बन्धनि-, आरट्वायनि- > णि-बन्ध- कि- आरग्वायन- टि. द. आरण्य- २^१*अरण्य- द्र. आरद्ध-> °द्वायनि- आरटव- टि. द. आरनाल^१ - > °ल-त्रपु-कांस्य- विकार- -राणाम् काध २७८: १. आ√रप् > आ-रप(त् >)न्ती- न्ती माग २, १, १४†. आरपन्ती-वर्जम् शुप्रा ६, ३०. आरब्ध- > °ब्धायनि- आरटव- टि. द. आ√रभ्, म्भ्, आरभते आपथ्रौ १, ३, ११××; माथ्रौ; आरभते बौग १, ८, १२; आरभन्ते माथ्रौ ६, २, १, २××; आपध; या ३, २१; †आरभे आपथ्रौ १, ३, ११^१××; बौथ्रौ; माथ्रौ १, ३, ११^१; हिथ्रौ १, २, ३०^१; आरभामहे या ३, २१; †आरभन्ताम् वाग ११, २१;

a) वैप १ द्र. । b) =इष्टि-विशेष- । पस. । c) अर्तिः इति पाठः ? यनि. शोधः । d) सप्र. आर्तौ <> आर्याम् इति पाभे. । e) तुप्त. । f) पाभे. वैप १, ६९३ द्र. । g) अर्थः व्यु. च ? । h) =धातु-विशेष- [पित्तल-] इति पागम. । व्यु. ? । i) =वृक्ष-विशेष- । व्यु. ? । j) आरट्वायनि-चान्धनि-, णि-बन्धकि-, णि-बन्धनि- इति पागम., आरट्वायनि-बन्धकि- इति पासि. । k) अर्थः व्यु. च ? । < √आ√रट् इति MW. । l) =ऋषि-विशेष- । व्यु. । m) तु. भाण्डा. । आरद्ध- इति [पक्षे] भाण्डा., पाका.; आरब्ध- इति पासि., आरट्व- इति पागम. । n) =देश-विशेष- । व्यु. ? । o) < √आ√रट् इति पागम. । p) =धातु-विशेष- । व्यु. ? । q) पाभे. वैप १, १५६१ k द्र. ।

†आरभस्व कौस् ५५, १७××;
अप; †आरभेयाम् वाश्रौ १,
३,७, ७; अत्र ११,९; †आरभ-
ध्वम् आश्रौ ३, ३, १; शाश्रौ ५,
१७, १; आरभेत आश्रौ ६, ८, ७;
बौश्रौ; आज्यो ७, २^१; आरभेत्
आग् ३, ५, १२; आमिग्; †आर-
भेताम् आपश्रौ ३, ९, १०; बौश्रौ
२४, २९ : १७; भाश्रौ ३, ८, ११;
हिश्रौ २, ५, ११; आरभेरन् वाश्रौ
३, २, ३, २३.

†आरभ्यासै^b वाश्रौ ४, २८^४ :
७; ७६ : ७.

आरेभे वृदे ४, ५७; ७, ५४;
†आ...रभ्भ या ३, २१^८;
(आ) रभ्भ >म्भा ऋप्रा ७,
३३; ९, ४३.

आ-रप्स्यमान- -नः आश्रौ २,
८, १××; आपश्रौ.

आ-रब्ध- -ब्धः बौश्रौ २४, १५ :
१२; -ब्धान् अत्र ८, ३^१; -ब्धे
आपध २, १७, २४; हिध २, ५,
५२.

आ-रब्धवत्- -वन्तम् बौध २, १,
३५.

आरब्धुम्- या १२, ३२.

†आ-रभत्- -भन्तः आपश्रौ ६, २,
२; भाश्रौ ६, ५, ६; हिश्रौ ६, ७, ७.

†आ-रभम् या १२, ३२^८.

आ-रभमाण- -णः भाश्रौ ५, १६, ५;
हिश्रौ.

आ-रभ्य आश्रौ १, ५, ३६; आपश्रौ;
बौपि ३, ४, ८^d.

आ-रभ- -भः काश्रौसं २७ : २;
बौश्रौ; -भम् वाश्रौ १, १, १,

७७; अप; -भस्य मीसू ६, २,
१४; १०, १, ४; ५, ६; ११,
१, १०; -भ्भाः अप ६७, ५, २;
आज्यो २, २; -भ्मात् काश्रौ १,
४, ३; पावा १, २, ६४; -भ्मान्
आज्यो २, ७; -भ्मे काश्रौ १, २,
१०; ३, ४; श्रुत्र ४, १२७; -भ्मेण
काश्रौ २२, ६, १९; -भ्मेषु बौध
२, ४, ४.

आरभ्भ-काल- -लः काश्रौसं
६ : ८.

आरभ्भ-गामि-त्व- -त्वात् मीसू
१०, ४, २७.

आरभ्भ-भाष्य-त्व- -त्वात् मीसू
११, १, २०.

आरभ्भ-यज्ञ- -ज्ञात् वाध २६, ९.

आरभ्भ-विभाग- -गात् आपश्रौ
२४, ४, २१; मीसू १२, २, २२.

आरभ्भ-विराम- -मयोः अपं
१ : ६.

आरभ्भ-संयोग- -गात् मीसू ९,
१, ३५; १०, १, ४; १२, २, २०.

आरभ्भ-सामर्थ्य- -र्थ्यात् काश्रौ
१, १, ४.

आरभ्भा(भ्भ-अ)नपवर्ग- -गात्
पावा ३, २, १२३.

आरभ्भा(भ्भ-आ)नर्थक्य-
-क्यम् पावा १, २, ६४.

आरभ्भा(भ्भ-अ)समवाय- -यात्
मीसू १०, ४, २६.

आ-रभ्भण- पाग ५, १, १११; -णम्
अं १ : ७; -णात् आपध २,
२७, ७; हिध २, ५, २२६.

आरभ्भणीय,या^०- पा ५, १,
१११; -यः आपश्रौ २३, ४, २;

७, १३; ८, १०; हिश्रौ १६, ५,
१८; १८, २, १; ३, ३; ४;
-यम् आपश्रौ २१, १५, ८; बौश्रौ
१६, १४ : ५; ३६ : ९; -यस्य
बौश्रौ २४, ३९ : ८; -या माश्रौ
१, ६, ५, १४^१; २, २, ५, १; ५, १,
१, १५; ३२; वैताश्रौ ३५, १०;
१३; मीसू ९, १, ३४; १२, २;
१९; -याः आश्रौ ७, १, १५,
२, १०; ४, ७; ५, १४; ८, ४,
१५; -यात् बौश्रौ १७, २० :
२; -याम्यः आश्रौ ७, २, १६;
४, ८; ११, ३५; ८, ४, ७; -याम्
बौश्रौ ५, १ : ७; माश्रौ १, ५,
६, १९; २४; २५; वैश्रौ ८, ३ :
५; -यायाः वैताश्रौ ३५, ९;
-यायाम् वैश्रौ २०, ४ : २;
-यासु माश्रौ ५, १, १, ३१;
-येन बौश्रौ १७, २० : ३.

आरभ्भणीया-पर्यास-वर्जम्
वैताश्रौ ३१, २१.

आ-रभ्भयित्वा आपश्रौ १८, १६, १४.

आ-रिप्समान- -नः वैताश्रौ ८, १.

आ/रम्^f, आरमति आपश्रौ ८, ६,
२८; ३०; आरमत आपश्रौ १४,
२९, १; बौश्रौ २०, १ : ९; वैश्रौ
२१, १६ : १; आरमेत् आश्रौ
२, १६, २××; वाश्रौ.

आ-रमत्- -मन्तः लाश्रौ १, ११,
२६.

आ-रमयित्वा द्राश्रौ २, ४, १८;
लाश्रौ १, ८, १४.

आ-राम^०- -से शांश् ५, ३, १.

आररक-, क्य- अररक- द्र.
आ-रव- आ/रम् द्र.

a) भेति इति पाठः ? यनि. शोधः । b) आरभासै इति ? संस्कृतुरभिमतः । c) पाठः ? शोधार्थ

वैप १, ६९४ ० द्र. । d) आलभ्य इति B. । e) =इष्टि-विशेष, ऋग्-विशेष- । f) पा १, ३, ८३ परामृष्टः द्र. ।
g) =उपवन- । उप. अधिकरणे घञ् प्र. ।

आ/रस्, आरसन्ति अप ६४, ७, ६; ९.
 आ-रसत्- -सन्ति: अप ६४, ७, १.
 आरस्य- १अ-रस- द्र.
 आरा^०- पाग ३, ३, १०४; ६, १, २०३;
 -रया बौध २, २, ७४; ३, २, २.
 आरा (रा-अप्र >) आ^०- -ग्राम्
 आपश्रौ ११, ४, ९१; १४, ६, ३^०;
 वैश्रौ १२, २४ : ७; हिश्रौ ९, ८,
 २३; १०, ३, ४०.
 आराज्ञी^०- (> आराज्ञक- पा.) पाग
 ४, २, १२७.
 आराटक^०- (> ^०कीय- पा.) पाग
 ४, २, १३८.
 आराण^०- -ण: वैश्र ५, ४ : २८^१.
 आ-रात्रि-> ^०त्रिक^१- -कम् अप ७,
 १, ४; १३^२; १८^३, ५, ३^१.
 आराज्य^०- -ज्याणि अप ४, ४, १.
 आ/राध्, आराधयति बौश्र २, ११,
 ४३.
 आ-राधन- -नम् वृदे ५, १२०.
 आ-राधय^०- (> आराधय- पा.)
 पाग ५, १, १२४.
 आ-राधित- -ता: अप ५४, २, ५;
 ५५, १, ६.
 आ-राध्य वैश्रौ १, ४ : ९; आमिष्ट.
 आ-राम- आ/रम् द्र.
 आराल^०- (> आरालित- पा.)
 पाग ५, २, ३६.
 आ/रि, (आ)रिणन्ति ऋप्राध, ८३^१.
 आरित-आ(आ/अ)र्(पूजायाम्) द्र.

आरित्रिका-, ^०की- २अरित्र- द्र.
 आरिदमिका-, ^०की- अरि- द्र.
 आ-रिप्समान- आ/रम् द्र.
 आ/रिष्, आरिशामहे हिश्रौ १२,
 ६, ६^१.
 आरिष्मीय- अरिष्म- द्र.
 आरिष्टीय- २अरिष्ट- द्र.
 आ/रि(=लि)ह्, आरेडि माष्ट २,
 १८, २^१.
 आरीश्वीय^१- अरीश्व- द्र.
 आरीहणक- अरीहण- द्र.
 आ/रु > आ-रव-, ^०राव- पा ३, ३,
 ५०.
 आ/रुष् > आ-रोक^१- -का: वैश्रौ
 १२, ४ : ११; -कान्^१ आपश्रौ
 १०, ५, ३; भाश्रौ १०, ३, ३; -केषु
 हिश्रौ १४, ३, ५१.
 आ-रोचन^१- -न: या ५, २१; -नात्
 या १२, ७.
 आ/रुज् > आ-रुजत्- -जन्त: या
 १०, ३०^१.
 आ-रुजतु^०- -रुभि: वैताश्रौ ३३,
 १५^१.
 आ-रुजे आपश्रौ १७, ७, ८^१.
 आरुज्^१- -रुज: शाश्रौ १८, ३, २^१.
 आरुण- प्रवृ. अरुण- द्र.
 आरुणसिन्धु^०- -न्धु: बौश्रौ १७: १५
 आरुणि- अरुण- द्र.
 आ/रुष्, ^१आरुन्दि कौस् १२७,
 ५; अशां १४, २.

आ-रुध्यमान- -नेषु आपश्रौ ५,
 २६, ३.
 आ-रोधन- -नात् या १४, ३५.
 आ-रुपित- आ/रुह् द्र.
 आरुसीय- २अरुस्- द्र.
 आ/रुह्, आरोहति शाश्रौ १६, १७, १;
 काश्रौ; या ३, ५; आरोहत: काश्रौ
 १४, ५, ८; आरोहन्ति शाश्रौ १६,
 १८, १७; काश्रौ; या १३, ८^१; ^१आ
 (रोहन्ति) बौश्रौ १९, १०: २२; ४५;
 आरोहय: या ३, ५^१; ^१आरोहामि
 द्राश्रौ १०, ४, १०; लाश्रौ ३,
 १२, ९; आष्ट २, ६, ३; आरोहतु
 शाश्रौ १७, १६, ७^१; ^१आरोहन्तु
 शाश्रौ १७, १६, १-४; द्राश्रौ;
 आरोहस्व माष्ट १, १०, १७;
^१आरोह आश्रौ ३, १०, ६; शाश्रौ;
 आष्ट १, ७, ७^१; शाष्ट ५, १, २; पाष्ट
 १, ७, १^१; गोष्ट २, २, ४^१; जैष्ट
 १, १२ : १४^१; या १२, ८;
^१आरोहतम् आपश्रौ ५, ८, ८;
 भाश्रौ ५, ४, ८; वैश्रौ १, ८ : ३;
 हिश्रौ ६, ५, १०; ^१आरोहत आष्ट
 ४, ६, ८; शाष्ट; ^१आरोहत् आपश्रौ
 ५, १८, २; हिश्रौ ६, ५, १६; आ
 (अरोहत्) अत्र १४, १; आरो-
 हन् आपश्रौ १८, १५, ६; वाधूश्रौ
 ४, ६४^१; ९; आरोहेत् काश्रौ १६,
 ६, १९; आपश्रौ; आरोहेयु: द्राश्रौ
 १०, ४, १४; लाश्रौ ३, १२, १४.

a) वैप १ द्र. । b) सप्र. आरामाम् <> साम्रा: इति पाभे. । आरामामि^० इति c. पाठमभिर्प्रति ? ।

c) =नगरी-विशेष- । व्यु. ? । आराज्ञी- इति पागम. । d) तु. पाका. । वाराटक- इति भाण्डा. पासि. पागम.,
 वाराटिक- इत्यपि पागम. । e) अर्थ: व्यु. च ? । f) =नीराजन- । ठञ् प्र. (पा ५, १, ७९ (वैतु. वैप ३, १५२ b)) ।
 g) विप. (सूक्त-) । आ रात्रि [मा ३४, ३२] > मत्वर्थय: अत् प्र. उरसं. (पा ५, २, ५९) । राभ्याणि इति पाठ: ? यनि.
 शोष: [तु. संस्कृत: टि.] । h) पृ २५५ k द्र. । i) पृ ३५६ यनि. शोष: । j) =अन्तराल-, छिद्र- । k)
 तु. सप्र. काठ २२, १३ अतीरोकान् इति, मै ३, ६, १ 'रि^० इति, तै ६, १, १, १ अतीकाशान् इति । l) उप. भावे
 कर्तरि-च प्र. । m) पाभे. वैप १, ६१२ h द्र. । n) =ऋषि-विशेष- । व्यु. ? । o) पाभे. वैप १, ६९६ c द्र. ।
 p) पाभे. वैप १, ७३६ a द्र. ।

आरुहेत् कागृ १, १५; ऋरु-
हेम > मा आश्रौ ४, १३, २;
आपश्रौ.

ऋरुहेत् आश्रौ २, १, १७ × ×;
बौश्रौ; आ...रुहेत् अश्र १३,
१^१ऋ; आरोक्ष्यामि सु १४, ३;
आरुश्रत् कौसू ८०, ५२ऋ; ऋरु-
...अरुश्रत् कौसू ८९, ६; अश्र
३, ५; ८, ५; ऋरुश्रत्^a आपमं
१, ६, ११; बौगृ १, ५, ४; आ-
(अरुक्षाम) कौसू ७७, २ऋ^a;
ऋरुहेत् आपश्रौ १४, ११,
४; हिश्रौ १०, ६, ९; अश्र १३,
१; आ...अरुहेत् भाशि २६ऋ;
आरुहन् अप ४६, ८, ५^b; आ-
(अरुहन्) ऋप्रा १८, २६ऋ; ऋरु-
रुहम् आपश्रौ १०, ९, ४; २२, ८^c;
बौश्रौ ६, १२ : १५^c; १८, ४५ :
१२^d; भाश्रौ १०, ६, १; १५, ४^c;
माश्रौ २, १, ३, ४९^c; वैश्रौ; हिश्रौ
७^e, २, २०; ३५ऋ; आ...अरु-
हम् आपश्रौ १०, ९, ४; हिश्रौ १०,
२, ७; आ(अरुहम्) वैश्रौ १२,
८ : ११.

आरोपयते कागृ २६, ४; हिगृ १,
२७, ७; आरोपयति आमिगृ २,
४, १ : १९; हिपि ११ : ३; वैध
२, ३, ४; आरोपयन्ते बौगृ १, ५,
८; ३, ९, ११; आरोपयन्ति
आपश्रौ ६, २८, २; जैगृ २, ४ :
७; आरोपयामि वागृ ९, ११ऋ;
आरोपयेत् वागृ १५, २; विध;
आरोपयेयुः वैगृ ३, ४ : १३.
आरोहयति काश्रौ १५, ५, २५ × ×;

वैताश्रौ; आरोहयेत् बौश्रौ २७, ६;
२६; आगृ १, ८, १; २; ४, ६, ८ऋ;
अप ११, १, १०; ३०^२, २, ७.

ऋरु-रुपित^d - तम् या ६, १७;
ऋप्रा २, ७५; उसू २, ११.

ऋरु-रुहम् या ५, २५^१.
आ-रुह्य आश्रौ २, ६, ५ × ×; आपश्रौ;
या १०, ३०.

आ-रुह- -ठः आपश्रौ १०, ९, ४ऋ;
भाश्रौ १०, ६, १; वैताश्रौ; -ठम्
आपश्रौ २२, २६, १८; २८, २२;
वाश्रौ; -ठाः हिपि १८ : १५ऋ;
-ठे काश्रौ १६, ४, ३३.

आरुह-पतित^e - तेन बौध २,
२, ७७.

आरुह-वत्^f - वत् जैश्रौ २३ :
१५; जैश्रौका ६१; द्राश्रौ २, २,
४०; लाश्रौ १, ६, ३६.

आ-रोक्ष्यत् - क्ष्यन् काश्रौ १४, ५,
६; आगृ २, ६, १; पागृ ३, १५,
५; ६; ९.

आ-रोहुम् या ५, २५.

आ-रोपण- -णम् वैगृ ५, १४ : ५.

आ-रोप्य काश्रौ ८, ६, ७; वैश्रौ.

आ-रोह^g - पाग ५, २, १३६; -हः

वैताश्रौ २६, ११; ३३, २७; -हम्
भाश्रौ ७, १, ८; हिश्रौ ४, १, १५;
वैताश्रौ २६, ११; -हाय वैताश्रौ
२६, ११; -ऋहासः आमिगृ
३, ८, २ : ४४; बौपि १, १५ :
५१.

आरोह-वत् - पा ५, २, १३६.

आरोहिन् - पा ५, २, १३६;

-हीणि निस् १, ५ : २३; ६ :

११; १६.

आ-रोहण^h - पाग ५, १, १११;
-णम् आश्रौ १२, ८, १०; काश्रौ;
वाधूश्रौ ३, ७६ : ९^१; -णात् अप
६८, २, ३५; -णे आपश्रौ २२,
३, ५; हिश्रौ; -णैः वाधूश्रौ ३,
७५ : १३.

आरोहण-महानस- -सानि बौश्रौ
१५, १४ : ८^१; -से लाश्रौ ८,
४, १४.

आरोहणा(ण-अ)वरोहण- -णम्
काश्रौ १८, ३, ८.

आरोहणीय- पा ५, १, १११;
-यैः द्राश्रौ ११, ४, ९; लाश्रौ
४, ४, ८.

आ-रोहत् - ऋहन् आपश्रौ ४,
१५, १ × ×; भाश्रौ; -ऋहन्तः
आपश्रौ १६, २९, १; वैश्रौ १८,
२० : ६; हिश्रौ ११, ८, २;
-हन्तम् आपश्रौ १८, ६, ४ × ×;
वाश्रौ.

आरोहतीⁱ - तीम् आपगृ ५,
२२; वृदे ७, १३०.

आरोहन्ती - न्ती आपमं १, ६,
५ऋ; -न्त्याम् कौगृ १, ९, ८; १४;
शागृ १, १५, १३; १७; गोगृ २,
४, १.

आ-रोहय(त् >)न्ती - न्तीम् आगृ
१, ७, ७.

आ-रोह्य कौसू १७, ९; २२.

आ-रोह्यमाण- -णः वैताश्रौ २७,
६.

आरु- पाउ १, ८५.

आ-रोक- आ/रुह > द्र.

a) पामे. वैप १, ६९७ e द्र.।

b) पामे. वैप १, ६९७ f द्र.।

c) पामे. वैप १, ६९६ e द्र.।

d) वैप १ द्र.।

e) कस.।

f) =साम-विशेष-।

g) भाप., नाप.।

h) नाप. (मन्त्र-विशेष-, शकट-), भाप.।

भावायर्थेषु ह्युट् प्र.।

i) सप्र. आरोहणं च महानसं च <> आरोहणमहानसानि इति पामे.।

j) लुप्तभावः

उसं. (पा ७, १, ८१)।

आरोग- -गः बौध् १९, १० : १५; -गस्य बौध् १९, १० : ४१.

आरोग्य- प्रभृ. २अ-रोग- द.

आ-रोचन- आ/रुच् द.

आ-रोधन- आ/रुध् द.

आ-रोपण- प्रभृ. आ/रुह् द.

आर्क- /अर्च् द.

आर्कलूष- प्रभृ. अर्कलूप- द.

आर्कवत-, आर्कायण-, यणि- /अर्च् द.

आर्कतव- ऋकतु- द.

१आर्क्ष- १ऋक्ष- द.

२आर्क्ष- २ऋक्ष- द.

आर्क्षकायण^b- -गस्य वाधूधौ २, १३ : २.

आर्क्षोपासक- १ऋक्ष- द.

आर्क्ष्य-, आर्क्ष्यायण- २ऋक्ष- द.

आर्गयन- /ऋच् द.

आ(आ/अ)र्च्, आ...आर्चन् सु २३, २.

आर्च- /अर्च् द.

आर्चनानस- अर्चनानस- द.

आर्चाभिन्-, आर्चाभि-मौद्गल- ऋचाभ- द.

आर्चायन- २ऋच् द.

आर्चिक- /ऋच् द.

१आर्चिव्य^c- -व्यान् वाधौ ३, ४, ३, ८.

आर्ची- /ऋच् द.

आ(आ/अ)र्च् > आ(आ-अ)र्चित- तम् शंघ ४६२.

आर्जव- /ऋच् द.

आर्जि^d- फि ५७.

आर्जिक^d- > आर्जिकी(य >)या^d- याम्, -फं०ये या ९, २६.

आर्जिन्^e आपमं २, १६, २.

आर्जुनाद-(> ^{दक-}) अर्जुनाव- द.

आर्जुनायन-, ^{नक-} अर्जुन- द.

आर्जुनावक- अर्जुनाव- द.

आर्जुनि- अर्जुन- द.

†आ(आ/ऋ)र्त् > ^{र्त्विद्यमाण-} -गौ आपधौ २१, १०, १०; या ६, २१.

आ(ऋजसे) ऋअ २, १०, ७६; वृदे ७, ११६.

आ(आ/ऋ)र्त् > ^{र्त्विद्यमाण-} -गौ आपधौ २१, १०, १०६.

आर्त- आ(आ/अ, ऋ)र् द.

आर्तभाग-, ^{गीपुत्र-} /ऋच् द.

आर्तव- ऋतु- द.

आर्ति- आ(आ/अ, ऋ)र् द.

आर्त्ति^d- -त्ति आपधौ २०, १६, ७; ऋअ २, ६, ७५; वृदे १, ११३; ५, १३०; शुअ ३, ११८; निघ ५, ३; या ९, ३९; ४०; शौच १, ८२; -र्त्तिन् वाधौ ३, ४, ३, ३१.

आर्त्ति-ज्या-पाश- -शेन कौसु २९, ९.

आर्त्विज-, आर्त्विजीन-, आर्त्विज्य- ऋतु- द.

आर्त्वर्य^d अत्रा ३, ४, १.

आर्त्थपत्य-, आर्त्थिक- /अर्थ द.

१आर्द्र, ^{र्द्रा^d}- पाउ २, १८; पाग १, ४, ७४; २, ४, ३१; ४, १, ४१^h;

-र्द्रः आपधौ २, १०, ६१××; बौध्; -र्द्रश्च आपधौ २१, १८, ५; बौध्; -र्द्रया आपमं १, ११, ८१; -र्द्रस्य बौध् ४, १० : २९; भाधौ ७, २३, २; वैध् १०, २२ : ४; हिधौ ४, ५, ५५;

-र्द्रा आपधौ २०, ३, १७; हिधौ १४, १, ३७; कप्र १, ७, १४; -र्द्राः आपधौ १, ५, ९××; बौध्; -र्द्राणि अप २६, ४, ६; -र्द्रान् काधौ २, ८, १; आपधौ; -र्द्रै शोधौ ४, १५, ५; आपधौ; -र्द्रेण आपधौ २१, १८, ३; बौध्.

आर्द्र-गोमय- -ये कौघ ५, ४, ६.

आर्द्र/कृ पा १, ४, ७४.

आर्द्र-तृण- -गम् वैध् ११, १० : ६.

आर्द्र-दण्ड- -ण्डेन शोधौ ३, २०, २.

†आर्द्र-दानु^d- -नवः काघ ४०, १०^३; वाघ ४, ८; चाअ २ : १^h;

-नुः बौध् १०, ५४ : १७; माधौ ६, २, ५, ३४; शुप्रा ३, १५; -नुम् आधौ ४, १२, २^l.

आर्द्र-र(द् >)दी- पाग ५, ४, १३९.

१आर्द्र-पाणि^k- -णिना जैध्क १४१.

२आर्द्र-पाणि^l- -णिः पाघ २, ११,

a) = वसस्यार्थान्यतम- । पाठः? ऋक- इति शोषः (तु. वैप १, ६९५ g) । b) व्यप. । व्यु. ? < ऋक्षाक- इति विमृश्यम् । c) अर्थः व्यु. च ? । d) वैप १ द. । e) पाठः ? । पामे. पृ ३६२ h द., तत्र अर्जि > अर्जि इति शोषः । f) घा. विभादे वृत्तिः (तु. वैप १, १००१ l, C. च) । g) सपा. आर्त्विष्य <> आर्त्विष्य इति पामे. । h) तु. पासि. । आर्द्र- इति भाएडा. BPG., बीड- इत्यपि पासि. । i) आर्द्रवा इति पाठः ? यनि. शोषः (तु. सपा. काठ २, १) । j) पामे. वैप १, ६९९ i द. । k) कस. । आर्द्रपा इति पाठः ? यनि. शोषः । l) विप. । वस. ।

४; माण्ड १, ४, १२; कौसू २१, १७; अप ६५, २, ८; -जे: वाध १३, २०.
 आर्द्र-पाद^० -द: आमिण्ड २, ६, ७: १३; विध ७०, १; वैध ३, १, ४; -दाभ्याम् कौसू ४२, ६.
 आर्द्र-प्रमाण- -णम् काशु ७, ३०.
 आर्द्र-मञ्जरी^० -रीम् कप्र १, २, १२.
 आर्द्र-मांस- -सानि अप १, ३४, ४.
 आर्द्र-वंश- -शे विध ७०, ४.
 आर्द्र-वसन^० -नानि शाश्रौ १८, २४, ७.
 आर्द्र-वख^० -ता- -ता गौध १९, १६.
 आर्द्र-वासस^० -ससा शंघ ४६३.
 आर्द्र-वासस^० -सा: आमिण्ड २, ६, ३: ५९; अप ६५, २, ८; शंघ १५९; ३७९^०; ३८४; ४३३; ४४३; बौध २, ५, ३१; विध ६४, २४; ६८, १३; ९५, ४.
 आर्द्र-वृक्ष- (> आर्द्रवृक्षीय- पा.) पाग ४, २, ९०.
 आर्द्र-वेण^० -गानाम् अत्र ६४, ९, ६.
 आर्द्र-शाखा- -खया आण्ड १, ११, २; शंघ १४५; -खाम् आण्ड ४, ८, १५.
 आर्द्र-ह(स्त)>स्ता^० -स्ता अप्रा ३, २, ३०^०.
 आर्द्रा(र्द्र-आ)काशा(श-आ)तपा (प-

आ)श्रय^० -यात् बौध ४, ५, २४.
 आर्द्रा(र्द्र-आ)मलक-मात्र^० -त्रा: शंघ ४५२.
 आर्द्रौ(र्द्र-श्रौ)दुम्बरी- -री काश्रौ १८, ३, १४.
 आर्द्रौ(र्द्र-श्रौ)षधि-> णधि-गन्ध-पुष्प-फल-मूल-चर्म-वेत्र-विदल-तुष-कपाल-केश-भस्मा (स्म-अ) स्थि-गोरस-पिण्याक-तिल-तैल-विक्रयिन्^० -यी विध ५४, १८.
 आर्द्रा(र्द्र->)र्द्रा^० -पाग ६, २, १९३; -र्द्रैया आण्ड ४, ८, २६; बौध ३, ८, ३; अप १, ३७, ४; अशां ७, ४; -र्द्रा अप १, १, २; २-३, १; ४, २; ११, २; १२, १; ३१, ८, ६; ५७, ३, १; वेज्यो ३६; -र्द्राभ्य: शाण्ड १, २६, ४^०; -र्द्राम् अप १, ५, २; अशां १, ५; -र्द्रायाम् आमिण्ड २, ५, ८: २; बौध २, ७, २; ३, ४, ३४; अत्र १, ९, ७; २७, २; ३३, ६; ४३, ४; ४८, ३; अशां १३, १; -र्द्रायै वैण्ड ३, २०: ४; अशां १२, १; -०र्द्रै अशां १, ५.
 आर्द्रक- पा ४, ३, २८.
 आर्द्रा-भाग- -गे अप १, ६, ७.
 आर्द्रौर्द्री- -न्नी: आपमं २, १९, २.
 आर्द्राधानुक- -कम् पावा १, ४, १; ३, १, ३१^०; -कस्य पा ७, २, ३५; पावा १, १, २१; -के पा १, १, ४;

२, ४, ३५; ३, १, ३१; ७, ४, ४९; पावा ६, १, ९०; ४, ४६; ११४.
 आर्द्राधानुक-स्व- -स्वात् पावा ६, ४, ८७.
 आर्द्राधानुका(क-अ)धिकार- -रात् पावा ६, ४, ६४.
 आर्द्राधानुका(क-अ)श्रय-स्व- -स्वात् पावा २, ४, ३५.
 आर्द्रपुर- अर्ध- टि. द.
 आ(आ✓अ)र्ष > आर्षित^० -तम् अप्रा ३, ४, १; -तानि आश्रौ १०, ९, २^०; वैताश्रौ ३७, २^०; कौसू ११५, २.
 आर्षुदि- अर्षुद- द.
 आर्भेव- ऋभु- द.
 ✓आर्य ४आर- द.
 आर्य, र्या^० -र्यै: काश्रौ १३, ३, १०; वाश्रौ ३, २, ५, ३९^०; हिश्रौ १०, ५, १२^०; द्राश्रौ ११, ३, ६; लाश्रौ ४, ३, ६; आपमं २, २, ८^०; ऋश्रामिण्ड १, १, २: ३४, ५, १: २५^०; भाण्ड १, ६: ३१^०; शंघ ७^०; आपध २, २७, ८; हिध २, ५, २२७; गौध ६, ११; पा ६, २, ५८; -र्यम् शाश्रौ ८, २५, १^०; आपध १, २३, ६^०; २, २७, १४; हिध १, ६, १४^०; २, ५, २३३; गौध १०, ६०; अप्रा ३, ४, १^०; -र्यस्य गौध २२, ४; -र्या भाण्ड १, १३: १०^०; -र्या: भाश्रौ

a) विप. । बस. । b) कस. उप. = वस्त्र- । c) पूर्वेण संधिरार्यः । d) विप. । बस. पू. = सद्यःप्राप्त- । e) वैप १ द्र. । f) द्रस. > षस. । g) विप. । कस. > बस. । h) द्रस. > उस. । i) = नक्षत्र-विशेष- । वैप १, ६९९ d द्र. । j) अर्थः व्यु. च? । सप्र. आर्द्रौर्द्री: <> द्रञ्जाः इति पाभे. । k) पाभे. वैप १ परि. अर्षितानि मा २३, ५१; ५२ टि. द्र. । l) पाभे. वैप १, १३१८ j द्र. । m) सपा. आर्यः <> आर्या इति पाभे. । n) = देश-विशेष- । o) भावे व्यञ्जि य-ल्लोपः (पा ८, ४, ६४) ।

११,२,१२; माश्रौ १, ५, ५, ८;
हिथौ २४, १, १२; आपध १,
२०, ७; २९, ९; २, ३, १; १०,
११; २५, १३; हिध १, ६, २१;
७, ६६; २, १, ३२; ४, ११; ५,
१९२; -र्याणाम् भाश्रौ ९, १८,
४; हिथौ १५, ४, ३७; आपध १,
२०, ८; २१, १७; २, २९, १४^४;
हिध १, ६, ४७; मीसू ६, ५, ४८;
-र्यान् आपध २, २६, ४; बौध
२, १, ४९; हिध २, ५, १९९;
-र्याय आपध १, ३, ४०; हिध १,
१, ११६; याद्, २६^११^१; -र्यायाम्
आपध २, २७, ९; हिध २, ५,
२२८; -र्येषु या २, २; -र्यैः कप्र
३, १०, १६; आपध १, २८, १३;
२९, १; हिध १, ७, ४८; ५७.

आर्य-कुमार- पा ६, २, ५८.

आर्य-कृ(त>)वा- -ता आपश्रौ ६,
३, ७; -ताम् भाश्रौ ६, ८, १४.
आर्यकृती- पा ४, १, ३०; -ती
वाश्रौ १, ५, २, १०; -तीम् माश्रौ
१, ६, १, १३; ३, २, ३; -त्याम्
काश्रौ ४, १४, १; माश्रौ १, ६,
१, १४.

आर्य-जन- -नस्य वाश्रौ ३, २, ५,
३२^१.

आर्यजन-भूयिष्ठ^१- -ष्ठम् बौध २,
३, ५१; गौध ९, ६५.

आर्य-पथा(थ-अ)नुवर्तिन्- -तिना

विध ७२, ६.

आर्य-ब्राह्मण- पा ६, २, ५८.

आर्य-वल् बौध १, ५, ७६.

आर्य-विगर्हित- -ताः विध १६, ३;
२७, २७.

आर्य-विधि-प्रव्रजित- -तः हिध १,
५, ९७^०.

आर्य-वृत्त^१- -त्तः गौध ९, ६८.

आर्य-समय- -यः आपध १, १२,
८; हिध १, ४, ८; -येन आपध
१, १२, ६; हिध १, ४, ६.

आर्य-स्त्री- -स्त्रीणाम् आपध १,
२१, १३; हिध १, ६, ४३.

आर्यस्य(स्त्री-अ)भिगमन- -ने
गौध १२, २.

आर्या(र्य-अ)धिष्ठित- -ताः आपध
२, ३, ४; हिध २, १, ३५;
-तानाम् बौध १, ५, ७६.

आर्या(र्य-अ)नार्य- -र्ययोः गौध
१०, ६६.

आर्या(र्य-अ)वर्त^१- -र्तः वाध १, ८;
शंघ ८; विध ८४, ४; -र्तम् बौध
१, १, २५.

आर्यो(र्य-उ)पवेशन^०- -नम् आग्रिग
१, ४, १ : २.

आर्यमण- अर्यमन्- द्र.

आर्यश्चेत^१- पा, पाग ४, १, ११२.

आर्यहलम्^२ पाग १, १, ३७.

आर्य^३- -र्यैः साश्र २, ११६६.

आर्यायनि- ऋश्य- द्र.

आर्य- ऋषि- द्र.

आर्यभ- ऋषभ- द्र.

आर्यि^४- -र्यैः बौश्रौप्र २३ : ३.

आर्यिक्य- ऋषि- द्र.

आर्यिषेण- ?ऋषिषेण- द्र.

आर्येय- प्रसृ. ऋषि- द्र.

आर्यिषेण- ऋषि- द्र.

?आर्याः^१ वैध १, ११, १^१.

आर्यायणि- ऋष्य- द्र.

आर्यन्त्य- ✓अर्ह द्र.

आर्यायण- रअर्ह- द्र.

१आल^५- >आल-बिसो (स-उ)ल^१-
-लम् कौसू २५, १८.

आल-भेषज- -जम् कौसू ५१, १५.

२आल^३- >आला (ल-अकृत >)
क्ता^३- -क्ता ऋश्र २, ६, ७५^१.

आ/लक्ष >आ-लक्ष्य वैगृ ७, ४ : १.

आलक्षि[.जि,डिज]^३- (>°क्षी[.जी,
°क्षी-ज- पा.) पाग ४, १, ४१.

आलबव^४- -वाः बौश्रौप्र ४७ : ५.

आ/लभ्,म्भ्,आलभते काश्रौ २, २,
१८; ३, १; १९; ५, १५; २४; ८,
१९; ३, ४, २७; ६, १४; २०; ४,
१२, ६; ९, ७, ३, २०; ४, ३०; ७, ७;
८, ४, २२; ६, ११; ८, २५; ९, १८;
९, ३, १४; १४, ४, ११; ५, ९; १५,
७, ४; १६, १, ५; २, २७; १९, ४,
१९; २१; २०, ८, ३०; २१, २,
४; २२, ३, २८; २३, ४, ४; २५,
१२, ८; २६, ५, ७; १आपश्रौ ६,

a) सप्र. हिध १, ६, २२ आचार्याणाम् इति पाभे. b) विप. । बस. । c) सप्र. आपध १, १८, ३१
अविधिना च प्रव्रजितः इति पाभे. पृ ४०९ f समावेश्यः । d) =देश-विशेष- । उस. उप. आ/वृत् + अधिकरणे
घञ् प्र. । e) कास. उप. ✓विश् + अधिकरणे ल्युट् प्र. । f) व्यप. । व्यु. ? । अर्थ^० इति क्वचित्कः पाठः ।
g) बलात्कारे अन्व. । आर्य- (प्रतिबन्धे [पासित.], प्रीतिबन्धने (पागम.); हलम् (प्रतिषेधविवादयोः [पासित.],
निषेधानुवादयोः [पासिबा.], प्रतिषेधविषादयोः [पागम.] इति द्वे पदे इति शाकटायनः । h) =ऋषि-विशेष- । व्यु. ? ।
i) पाठः ? ऋषि- > आर्यः इति शोधः । j) ऋषिः इति C. । k) =ओषधि-विशेष- । व्यु. ? । l) समाहारे
द्रस. । m) वैप १ द्र. । n) अर्थः व्यु. च ? । व्यप. < अलक्ष- [°ज-, °डब-] इति पागम. । o) धा.
स्पर्शन-प्रापण-हिंसनादिषु वृत्तः ।

९,१; १०,८,१६; १२,१८,१४;
 १३,२३,६; १६, ७, १; ८, ३;
 १८,९,३; २०,४; २१,१३; १९,
 ५,३; १०,८; १७,३; ६; २०,१,५;
 १४,५; १०; २२, १२; २३, १;
 २४, ८; २५, १०; १२; २२, ३,
 १०; २५, ११; २८, २१; बौश्री
 २, ७ : ७; १२, १९ : ६; १४,
 १४ : ४; १५ : ३; १५, १० :
 १०; १३; १८; ११ : ५; १२; १७,
 १४ : १०; ५० : १७; १८, ५ :
 ७; ११ : ३; ६; ८; २३, १८ :
 १२; २४, ११ : ६; ३८ : ७;
 ३९ : ५; २५, २९ : ५; माश्री १,
 ३,४, २२; ६, २, ८; १०; २, ५,
 ५, ७; ६, १, ३, १; वाश्री १, ५, ४,
 १०; १३; २, १, २, ३; ८, ९; ३,
 ४, ५, १५; वाधूश्री ३, ५८ : १;
 वैश्री २, ८ : ७; ११, ३ : ४^२;
 ५; १६, २७ : १२; १७, २ : ४;
 १० : ७; १८, २ : १०; ४ : १२;
 हिश्री ६, ६, १६^२; ९, ७, ६; १८;
 ३७; ८, ३४; १०, २, ५; ११, २,
 १; १३, ३, २७; ६, ४५; ७, २२;
 १४, १, ५; २२; ३, १७; ५, ११;
 ६, ६; २१; २२; २३; १७, १,
 ४७; ७, २८; २२, १, १७; २३,
 ४, ६; ६०; पाश्री १, ८, ८; ११, ९;
 २, २, १६; ३, १३, २; आमिश्री २,
 १, ३; २७^२; ५, ८; ३७; ६, ६ : ३०;
 ३, ४, ३; १२; बौश्री १, २, ५, १, २,
 ७, २६; बौशि ३, ४, ९; माश्री २,
 १६ : १; हिश्री २, ३, ८; १५,
 १; कौश्री ९०, २०; अप ८, १, ५;
 शुभा ३, १५०; आलभन्ते शाश्री
 १६, ३, २७; १५, ३; ५; ८; २२,
 ४; काश्री ९, १२, ५; १०, ८, ९;

आपश्री १८, २, १४; ६, ७; २२,
 १७; २०, १५, ४; २२, ४; २१,
 १४, ७; ८; २२, १३; १४; २३,
 ४; ७; २४, ४; २२, २०, १२;
 १७; बौश्री १५, ९ : १; १९;
 १० : २१; १२ : १; १६, ११ :
 ११; १३; १९ : ८; १७, २२ :
 ५; १८, ११ : २३; माश्री ७,
 १०, ९; वाधूश्री ४, ५२ : ३^२; ४^२;
 १०८ : १; ७; ११; वाश्री ३, २,
 २, ४५; हिश्री १३, १, २३; २,
 २२; १४, ३, ५५; १६, ८, २;
 ३; ९; १४; १७^२; २५; १७, ७,
 २३; २५-२७; १८, १, २५;
 जैश्री ७ : १; वैताश्री ३८, १२;
 वैश्री ६५ : ९^२; वाश्री ११, २३;
 आलभे शंघ छछुछ^२; आलभ-
 ध्वम् वाधूश्री ४, १९ : १०;
 आलभामहै वाधूश्री ४, १९ :
 १४; १८; २१; २४; २८;
 आलभत वाधूश्री ३, १९ : १;
 ४, ६५ : ३; १०९ : ४; आलभन्त
 वाधूश्री ४, १९ : ११; १५; १८;
 २२; २५; ऋश्री ३, ४, ४, ५^२;
 या १२, ४१^२; भाशि ७३;
 आलभेत आश्री १, ११, २; १३,
 १; २, ९, १०; शाश्री १३, २,
 १; ७; ३, ३; ४, १; काश्री
 २५, ९, १; ४; १०; १०, १;
 आपश्री ९, १५, १; १३, २३, १४;
 १५; १४, ७, २०; २४, १; १९,
 १६, ८^२; १७; १७, ७; २०, २,
 १०; बौश्री १४, २८ : २; १७,
 १४ : ५; ९; २१, २५ : २१;
 २३, ६ : १२; २४, १९ : १-४;
 ७; २८, ६ : १३; १७; माश्री
 ९, १७, १; माश्री ३, ५, १६; ६,

१; ७, ३; ५, २, १०, ६; ८;
 १२; १४; १५^२; १६-२६; ३६;
 ४०-४४; ६, १, ३, १२; वाधूश्री
 ३, ४४ : ५^२; वाश्री १, ३, ६,
 १६; २, १, २, १३^२; ३, ४, ५, २३;
 वैश्री १२, १४ : ८; १७, ४ :
 १; २०, ३२ : ७; ३५ : ४;
 २१, १२ : ८; हिश्री ९, ८, ३२;
 ३४; ४५; ११, २, १५; १५, ४,
 २२; २२, १, ४; ७^२; १५; १८;
 २३, १, ३; ५८; द्राश्री ५, ४, ३;
 १२, ३, २१; १३, ३, ७; लाश्री २,
 ८, ६; ४, ११, १९; ५, ३, १०;
 वैताश्री ११, १; आश्री १, १३, ७;
 २०, १०; पाश्री १, ३, २७;
 २, १३, ४; ३, ८, ३; आमिश्री
 ३, ९, ३ : २०; हिश्री २, १७,
 ४; गौशि २, ४, १; अश्री २,
 ६^२; ९; ५, ६; शंघ छछुछ^२;
 बौध २, १, ३०; विध ४८, ९;
 आलभेत् द्राश्री १-२, ४, १५; ३,
 १, २७; अप ४२, १, ६; वाध
 २३, १; शंघ ९७; आलभेरन्
 आश्री ५, ७, ८; १०, २, ३०;
 १२, ७, ७; ९; १०; काश्री २५,
 १३, २५; आपश्री २१, २३,
 १३; काश्रीसं ३२ : १९; वाश्री
 ३, २, ३, ४१; ४, ४; हिश्री
 १६, ८, १४; १५^२; द्राश्री ३,
 ३, १५; १३, ४, ११; लाश्री
 १, ११, ७; ५, ४, १७; ९, १२,
 ११; शंघ ३४५.
 आलभे शाश्री १५, २०, १; वाश्री
 १, २, ४, ३९^२; ऋश्री २, ७, ३२;
 आलप्स्यन्ते वाधूश्री ४, ५१ : १;
 आलप्स्यध्वम् वाधूश्री ४, १९ :
 ४२; ४३; आलप्स्ये^० माश्री १,

४,१,९५.
 आलम्भयते आपश्रौ १६, ८, ८;
 २२, २५, ४; वाधुश्रौ ३, ४१ :
 ३२; ६९ : ३४; वैश्रौ १८, ५ :
 १८; हिश्रौ २३, ४, ३; आल-
 भ्यन्ते शाश्रौ १५, १, २४; आपश्रौ
 २०, १४, ४; २२, १४; बौश्रौ
 १८, ११ : १९^३; २४, ११ :
 १९^५; वाधुश्रौ ३, ८६ : ६;
 लाश्रौ ८, १०, ६; ९, ४, २६.
 आलम्भयति बौश्रौ १७, ४९ :
 १०; कौस् ५२, १०; ५८, १४;
 ७२, ६; ८; ७९, ३; ८२, १६.
 आलिप्सन्त वाधुश्रौ ४, १९ :
 २८; ३८; ४१; आलिप्सेत वैध
 ३, ६, ११.
 आ-लब्ध,ब्धा- -ब्धः काश्रौ १९,
 ४, २०; २५, ९, ७^५; वाधुश्रौ ३,
 ४९ : २^५; -ब्धस्य वाधुश्रौ ४,
 १९ : १२; १४××; -^५ब्धाय
 आपश्रौ २०, १५, ६; बौश्रौ १५,
 २७ : १०; -ब्धायाम् आपश्रौ
 १९, १७, १७; बौश्रौ १४, १५ :
 १८^३; २३, ७ : ५; ९; २६, ९ :
 १^३; हिश्रौ २२, १, २७; २८;
 -ब्धेषु वैश्रौ १७, १६ : ५.
 आ-लभत्- -भन् वाश्रौ २, २, १, १.
 आ-लभमान- -नः बौश्रौ ३, १७ :
 ५; ८; २०, २४ : ८××; हिश्रौ;
 -नस्य आपश्रौ ८, २१, ६.
 आ-लभ्य काश्रौ १, १०, १४××;
 आपश्रौ.
 आ-लभ्य- -भ्यः वैश्रौ १४, १४ :
 १; १५, १ : १; १७, १ : ४.

आ-लम्भ- -म्भः निस् ८, ७ : ६;
 १४; आमिष्ट ३, ७, ३ : १४;
 ४ : ६; बौपि २, १, ७; -म्भात्
 आग १, १५, १; आमिष्ट ३,
 ७, ३ : १६; बौपि २, १, ७^३;
 -म्भे आपध १, १६, १४;
 हिध १, ५, १३.
 आलम्भ-स्थान- -नम् आपष्ट
 ३, १०.
 आ-लम्भन- > °ना(न-अ)संभव-
 -वात् काश्रौ ८, ८, १४.
 आ-लम्भ्य- पा ७, १, ६५.
 आ-लिप्समान- -नः काश्रौ ८, २, ७.
 आ/लम्भ् > आ-लम्भन- > °ना(न-
 अ)विदूर्य- -र्ययोः पा ८, ३,
 ६८.
 आलम्भायन^१- > आलम्भायनीय^१-
 -यम् शुभ्र ४, १६६.
 आलम्भि^८- (> आलम्बी- पा.)
 पाग ४, १, ४१.
 आलम्भायन^१- -नाः बौश्रौ ४५ :
 ५.
 आ-लय- आ/ली द्र.
 आ-लव- आ/ल द्र.
 आलवण्य- १अ-लवण- द्र.
 आलवाल^८- पाउभो २, ३, १०५.
 आलवि^१- -विः बौश्रौ ३१ : २.
 आलस-, °सायन- २अलस- द्र.
 आलस्य- १अ-लस- द्र.
 आ-लान- आ/ली द्र.
 आलि- पाउभो २, १, १६८.
 आ/लिष्, आलिखति बौश्रौ ४, २ :
 ७-१०; ५, ११ : २५; २६, २५ :
 १७; २९ : १२; कौस् १३७,

१९; आलिखेत् बौश्रौ २०, २६ :
 ३; अप ६६, २, १; विध ७१,
 ४१; आपशु ४, ७; १६, ९; १८,
 ८; ९; हिशु २, ६; ५, २०; ३०;
 ३१; ६, १३; १४; आलिखेयुः
 लाश्रौ १०, १५, १७.
 आ-लिखत्- -खन् पाष्ट १, १६, २३;
 आमिष्ट २, १, ३ : १४^१; वैष्ट ३,
 १५ : ४; हिष्ट २, ३, ७^५; जैष्ट
 १, ८ : १६^५.
 आ-लिख्य आमिष्ट ३, ६, २ : १३;
 बौशु १ : १०.
 १आ-लेखन- -ने पा ६, १, १४२.
 आलिगव्य-, °व्यायनी- अलिगु- द्र.
 ?आलि(क^५)गी^५- -गी अअ ५,
 १३^५.
 आ/लिङ्ग्, आलिङ्गते अप २९,
 २, ३.
 आ-लिङ्गन- -नम् वैष्ट ३, ८ : ७; ८;
 -ने पा ३, १, ४६; पावा ३, १,
 ४६^२.
 आलिङ्गी^१- (> आलिङ्गी- पा.) पाग
 ४, १, ४१.
 आलिङ्गायन^१- पा, पाग ४, २, ८२.
 आ/लिप्,म्प्, आलिम्पति कौस्
 २५, ८; २६, २२××.
 आ-लि(प्त>)सा- -से आपश्रौ १,
 ६, १३.
 आलिप्त-मुख- -खः आपध १, ८,
 २; हिध १, २, ९०.
 आ-लिप्य वैश्रौ १८, १ : ८३; वैष्ट.
 आ-लिप्यमा(न>)ना- -नया या
 १२, ३.
 आ-लेपन- -नम् वैष्ट १, ५ : ५.

a) = ऋषि-विशेष-। व्यु. ? < आ-लम्भ- इति MW. । b) विप. । तेनदृष्टीयः ऋः प्र. । c) अर्थः व्यु. च ? । व्यप. < अलम्भ- इति पागम. । d) = ऋषि-विशेष-। व्यु. ? । e) वैप ३, १५३ g द्र. । f) आलिख इति पाठः ? यनि. शोषः (तु. हिष्ट २, ३, ७) । g) वैप १ द्र. । h) अर्थः व्यु. च ? । व्यप. < आलिङ्ग- इति पागम. । i) = नगर-विशेष-। व्यु. ? ।

आ/ली > आ-लय^a - यस् सु ७, २;
 वैगु ३, २२; ६; -ये वैगु ४, ४; २५.
 आलय-पार्श्व- -र्ष्वे वैध ३, ९, ३.
 आ-लान^b - > °न-अष्ट-कुञ्जर^c -
 -रम् विध ७१, २८.
 आलीढ- (> आलीढेय- पा.) पाग
 ४, १, १२३.
 आलु^d - पाउमो २, १, ५.
 आ/लुङ्क् > आ-लुङ्क्य वृदे ७, ८९.
 आ/लुङ्, आलोडयति वाश्री १, ७,
 ४, १८; कागु २४, ११.
 आ-लोड्य आगु १, २४, १५; ३, १०,
 ११; आमिगु २, ७, ७ : १६.
 आ/लुप् > आ-लुप्य काश्री २५, १,
 १८; आपश्री.
 आ/लुम्, ?आलोभयति बौश्री १८,
 ४१ : १५१.
 आ-लुब्ध- > आलुब्ध-जनपद^e -
 -वः निसू ७, ६ : २१.
 आलुशायनि- अलुश- द्र.
 आ/लू > आ-लव^f - वान् आपश्री
 १, ४, ८; भाश्री १, ४, १; माश्री
 १, १, १, ३८; वाश्री १, २, १,
 १९; हिश्री १, २, ४१.
 आलू- पाउमो २, १, ११७.
 १आ-लेखन- आ/लित् द्र.
 २आलेखन^g - पा, पाग ४, १, ११२;
 -नः आश्री ६, १०, २९; आपश्री
 ५, २९, १४^h; ९, ३, १५; ४, ९;
 ६, ३; १०, १२; १६, ६; १९,
 १४; १०, १६, ४; १४, १३, ८;
 २२, १३; १९, ६, १०; ८, ८;

१०, ४; २१, ३, ८; ६, २; १५,
 ६; १९, २०; भाश्री १, १४, ७;
 १७, १; २०, १५; २, ११, ७;
 ४, ३, १; २२, १२; ५, १३, १४;
 १७, ७; २१, १३; ९, २, १७; ५,
 २; ६, ३; १३; ७, ७; ८; ८, २;
 ९, ६; ११; १५; १५, १२; १६,
 ८; १७, १०; हिश्री २३, १, २०;
 २५; ५४; मागु १, २०; १३; मीस्
 ६, ५, १७; -नाः बौश्री ३ : २^h.

आलेय- २अलि- द्र.

आ/लोक् > आ-लोकयत् - यन्
 कप्र ३, ९, १९.

आ-लोक्य विध ६४, ९.

?आलोभ- -भात् निसू १०, ६ : १५.

आलोष्ट- (> आलोष्टी/कृ पा.)
 पाग १, ४, ६१.

आ-लोहⁱ - > आलोह-वत् - वान्
 आगु ४, ८, ६.

आलोहायन- अलोह- द्र.

आ-लोहित- -तम् कौस् २६, २२.

आ(आ/अ)व् > आ(आ-अ)व्य >
 व्या ऋप्रा ८, ४८^h.

आव- अस्मद्- द्र.

आवः वि/वृ (आच्छादने) द्र.

आ(आ-अ) व/गम् > आव-गत्वा
 सु ६, ४; २२, ४ⁱ.

आ/वच्, आ...वोचे या ५, ७^h;
 आ...अवक्ष्यत् निसू २, १० :
 २१.

आ-वाज^k - > °ज-शस (:) बौश्री
 २२, ५ : २५.

आवट- १अवट- द्र.

आवटिक^l - -काः चव्यू २ : ३७.

१आवट्य- २अ-वट- द्र.

२आवट्य- , °द्या- ३अवट- द्र.

?आवत् ?आवाः टि. द्र.

†१आ-वत्^m - वतः कौस् ५८, ३; ११;
 अय ६, १, १०; ३२, १, ९; अशा
 २३, ३; अश्र ५, ३०; अयं २ :
 ५३.

२आ-व(त् >) तीⁿ - -ती आश्री २,
 १४, १९; -त्यः निसू ८, १; ३५.

आ-वत्सर^o - -राय जैगु २, ३ : ५.

आवत्सार- अवत्सार- द्र.

आ/वद्, आवदामि अत्राय १, ३;

†आवदासि आपमं १, २, ८; ९;
 ४^p; बौगु १, ५, ३; जैगु; †आवद्
 आश्री १, २०, २^q; बौश्री १, ६;
 २०^r; ६, २५ : ३; भाश्री; द्राश्री
 १०, ३, ४^r; ११, १, ६; लाश्री ३,
 ११, ३^q; ४, १६; आगु; आवदेत्
 जैश्रीका १७८; २१४.

†आ-वदत् - दन् आगु ३, ५, ७;
 कौगु ३, ७, १०; शागु ४, ५, ८;
 कौस् ४६, ५४; ऋप्रा ४, ७६.

आवदानिक- अव/दो द्र.

†आ/वध्, आवधीत् या ५, २३;
 †आवधिष्ठाः आपमं १, ४, ९;
 आमिगु.

आवनतीय- अव/नम् द्र.

१-२आवन्त्य- , °न्त्यक- २अवन्ति- द्र.

आवन्त्यश्मक- अवन्त्यश्मक- टि. द्र.

आ/वन्द्, †आवन्दस्व भाश्री १०,

a) =गृह-। उप. अधिकरणे कृत्। b) =[गजबन्धन-] स्तम्भ-। उप. अधिकरणे ल्युद् प्र. धा. आत्वञ्च (पा ६, १, ५१)। c) पंस. > कस.। d) अर्थः व्यु. च?। e) विप.। बस.। f) =दर्भ-। उप. कर्मणि अप् प्र.। g) =आचार्य-विशेष-, तदपत्य-। व्यु. ?। h) =ऋषि-विशेष-। i) =ईषिताम-वर्ण- इति Old.। j) पृ ३८४ ?अवगत्वा इति नेष्टम्। k) अर्थः व्यु. च? <आ/वज् [गती] इति भाष्यम्। l) =[वाजसनेयिनामन्यतम-] संप्रदाय-विशेष-। व्यु. ?। m) वैप १ द्र.। n) =ऋत्। २आ-+मसुप् प्र.। o) प्रास.। p) पांमे. वैप १, ७०३ पृ द्र.। q) सकृत् आव इति पाठः? यनि. शोधः (तु. सपा. द्राश्री., BC. च)।

२२,४; वैश्रौ १४,१४ : ९.

आबन्ध(क>)का- आबन्धका-द्र.
आ/वप्, आवपते आश्रौ २,१,२६××;
वैताश्रौ ३१, २२^०; आवपति
शाश्रौ १४, २, २०××; काश्रौ
१५, ९, २५^०; आपश्रौ; या
६, ९; आवपतः माश्रौ १, ७,
४, ७; वाश्रौ १, ७, २, २३;
आवपन्ते आमिष्ट ३, ५, ३ : ४;
बौपि १, ३ : ३; हिपि १ : १५;
आवपन्ति काश्रौ २१, ४, २०;
वाश्रौ ३,३, १, ५२; वैताश्रौ १,
४; ऋभावपामि पाय १, ६, २;
आमिष्ट १, ५, ४ : १; ६, २ :
१५; भाय १, १६ : १५; हिण
१, २०, ३; आवपस्व कौसू ८७,
१२^०; आवपत आग १५, ६^०;
आवपेत आश्रौ २, १६, ४××;
वैताश्रौ; आवपेत् बौश्रौ २०,
६ : ४××; भाश्रौ; आवपेरन्
आश्रौ ७, २, १०××; आवपेयुः
बौश्रौ २०, ६ : ५; २३, १ :
३१; गोय २, ४, ८.
ओप्यन्ते बौश्रौ २४, ३ : ६; या
१२, ५.
आवापयति कौसू २१, ७; ७५,
११; ७६, १७.
आवप> आवप-निष्करा- पाय
२, १, ७२^०.
आवपत्- -वप् आश्रौ ७, ४, ११;
-पन्तम् वैताश्रौ २८, ३२;
-पन्तौ भाश्रौ ८, ५, १६.
ऋभावपन्ती- -न्ती^० आमिष्ट १,
५, ४ : ३; बौय १, ४, २६; भाय

१, १६ : १३; हिण १, २०, ४;
जैय १, २१ : २२.
ऋभावपन्ति-(क>)का^०- -का^०
आगमं १, ५, २; कौय १,
८, २३; शाण १, १४, १; पाय
१, ६, २; काय २५, ३२; माय
१, ११, १२; वाय १४, १८.
आवपन^०- -नम् आश्रौ १०, ९,
२^०; शाश्रौ; बौश्रौ २५, ३१ :
६^०; -नस्य या ३, २०; -नात्
बौश्रौ २०, ६ : २७; २६, ६ : ६^०;
-ने शाश्रौ १४, २, २०; १३,
८; बौश्रौ २०, ६ : ४; ७ : १.
आवपनी- -नी कौसू १३७,
१४^०.
आवपन-प्रभृति- -तयः भाश्रौ
६, १६, २७; -ति बौश्रौ २१,
४ : ८; १६ : १८; २२, ११ :
७; माश्रौ १, ६, ४, ९.
आवपन-प्रभृति-मन्त्र- -न्त्रः
बौश्रौ २५, ३१ : ७.
आवपन-श्रुत- -तौ माश्रौ १,
५, ६, ६.
आवपमा(न>)ना- -नाः आमिष्ट
३, ५, ३ : ६; बौपि १, ३ : ५.
आवाप- -पः आश्रौ ७, ५, १६;
शाश्रौ; बौश्रु १६ : १५^०; -पम्
वाश्रौ १, ३, ७, १२; -पाः आश्रौ
११, १, १३; -पात् आश्रौ ७,
२, १२; -पान् आश्रौ ७, ५, ८;
-पे हिश्रौ २, २, १; द्राश्रौ ११,
४, ३^०; अप ७०^०, २९, २; -पेन
बौश्रु २ : १०; -पौ निस् ५,
८ : ५.

आवाप-ज- -जानि बौश्रौ २४,
३ : ६.
आवाप-देवता- -ताम्यः बौश्रौ
१३, १ : ८.
आवाप-धर्मि-त्व- -त्वात् आश्रौ
१२, १०, ५.
आवाप-निर्वाप-प्रदेश-प्रत्यन्तर-
स्थान^०- -नानाम् नाशि १,
३, ८.
आवाप-भूय^०- -यम् बौश्रौ २४,
३ : ८.
आवाप-वचन- -नम् मीसू १०,
५, २२.
आवाप-वत्- -वान् छुसू २, ९ :
१; निस् २, १ : ३५.
आवाप-समवेत- -तानाम् कश्रौ
२४, १, १३.
आवाप-स्थान- -नम् आश्रौ
११, १, ८; शाश्रौ ४, १५, १०;
१२, २, ९; ६, २; कश्रौ २४, १,
१२; बौश्रौ २२, ८ : २५; लाश्रौ
६, ५, २; ४, ५; कौय १, ५, २७;
शाण १, ९, १२; पाय १, ५, ६;
-तानि बौश्रौ २४, ३ : २; -ने
बौश्रौ २२, ८ : २४; द्राश्रौ ११,
४, २; लाश्रौ ४, ४, २; ३^०; कौय
१, ६, ४; अप्राय ४, १.
आवापा(प-आ) हुति- -तिम्
हिश्रौ २, २, २६.
आवापिक, का^०- -कः बौश्रौ २०,
२२ : ४; मीसू १०, ४, ३६; -काः
अशां १८, १; -कानि या ८, ७;
-कासु आश्रौ १, ३, २२^०; -केन
अशां २५, २^०; -केतु, आपश्रौ

a) आवपति इति ०. शोधः ? । b) कासं. च्युतवकारः पाठः शोधार्हः । c) आहरनि^०
इति पाठे. । d) पाठे. वैप १, ७०४ b द्र. । e) वैप १ द्र. । f) भाप. । g) आवापः इति पाठः? यनि.
शोधः । h) सप्र. आवापे <> आवापस्थाने इति पाठे. । i) समासः ? । j) उप. √ वृ + क्यप् द्र. ।
k) विप. मस्वर्थायः ठन् प्र. ।

१९, १६, ४; हिश्रौ २२, १, ५.

आवापिका(क-अ)न्त- न्तम्
आश्रौ १, ९, ५.

आवापो (प-उ) द्वाप-दर्शन^१-
-नात् मीस् १०, ४, १९.

ओ(आ-उ)प्य आश्रौ ५, १२, ११;
शाश्रौ; ओप्य-ओप्य आश्रु १, ७,
१५.

ओ(आ-उ)प्यमान, ना- नम् वैताश्रौ
२८, २०; -नाम् कौस् १३७,
१५; -ने आपश्रौ १४, ८, ५;
हिश्रौ १०, ८, १५.

आवभृथक-, अधिक- अव/मृ द्र.

आ/वय् (स्तुतौ), †आ...वयः^२
निस् १, ७ : ८; साअ १, ३५३;
उनिस् ४ : ३५.

१आवय- (> आवयक-) अवयात-
टि. द्र.

२†आवय^३- -यम् अप्रा ३, ४, १.

आवयातक- अवयात- द्र.

आ-वयास्- आ/वी द्र.

आवयासीय- २अवयास- द्र.

आ-वरण- आ/वृ(आच्छादने) द्र.

आवरसमक- अवरसम- द्र.

आ-वर्ग-, आ-वर्जित- आ/वृञ् द्र.

आ-वर्त- प्रभृ. आ/वृत् द्र.

आवलेखनी-, अव/लिख् द्र.

आ/वल् > †आ-वल्ग^४- -ल्गः
माश्रौ १, ६, २, १७.

आवश्यक- प्रभृ. अवश्य- द्र.

आ/वस्(निवासे)^५, आवसेत् वाध ७,

३; बौध २, १, ३; विध ९६, १२.

आ-वसथ^६- पाठ ३, ११६; -थः
हिश्रौ ३, ३, १४; द्राश्रौ २, ३, १;
लाश्रौ १, ७, १; आपध २, २५,

४; हिध २, ५, १८२; -थम्

आपश्रौ १७, २०, ७; बौश्रौ ८,

१ : १०; १२, ८ : २४ × ×;

भाश्रौ; द्राश्रौ १, १, १२; लाश्रौ

१, १, १२^१; हिध २, ५,

१८८^६; -थाः आपध २, २५,

९^६; -थात् कौस् ११, ३;

आपध १, ३१, २; ३; हिध

१, ८, २०^३; गौध ९, ४४; पा

४, ४, ७४; -थान् अत्र ९, ६^१;

-थाय वैताश्रौ ६, ५; -थे आपश्रौ

४, २, १^१ × ×; बौश्रौ.

आवसथ-हरण- णम् काश्रौ १८,

६, ३.

आवसथिक- पा ४, ४, ७४.

आवसथो (थ-उ) न्मर्दना (न-अ)

लंकरण-दन्तप्रक्षालन- -नानि

काश्रौ ८, ९, २६.

आवसथीय^७- -यम् आपश्रौ ४,

२, १^१; बौश्रौ २, १७ : ४७; १८ :

२३^१; ३, १४ : १४; २०, १७ :

१९; भाश्रौ ४, २, ५^१; ५, १०,

३; ११, ७; वैश्रौ ३, २ : ८;

हिश्रौ १, २, ५^१.

आवसथ्य^८- पा ५, ४, २३^६;

-थ्यः आपश्रौ ५, ४, ८; वैताश्रौ

६, ५; वैश्रु २, १८ : ४; -थ्यम्

आपश्रौ ४, २, १; ५, १८, २; ६,

३, ४; भाश्रौ ५, १०, ३^१;

माश्रौ १, ५, ५, ५; ६, ३, ७; १४;

वाश्रौ १, ४, ३, ३४; ४, १; ५, ४,

२७; ३६; वैश्रौ १, ३ : १०; १५ :

१; ३, २ : ९; हिश्रौ १, २, ५; ६,

५, १६; -ध्यस्य हिश्रौ ३,

३, १४; वैताश्रौ ६, ५; -थ्ये

माश्रौ १, ५, ५, १७; वैश्रौ २,

६ : ६; वैश्रु ३, ७ : १; ४,

१४ : ६.

आवसथ्या (थ्य-अ) ग्न्या-

(मि-आ)यतन- -नम् वैश्रौ १,

३ : ८.

आवसथ्या(थ्य-आ)धान-

-नम् पाश्रु १, २, १.

आ-वसितुम् बौध २ ३, ५१; गौध

९, ६५.

आ-वास- -सम् अप ६९, ४, ५.

आवसान- १अवसान- द्र.

आ-वसु^९- -सोः^{१०} जैश्रौ २:५; जैश्रौका

८; द्राश्रौ ४, ४, १२; १२, १, २२

लाश्रौ २, ४, ५; ४, ९, १६; गोश्रु

१, ६, १५.

आवस्थ- अव/स्था द्र.

आ/वह, आवहते आपश्रु ८, ७;

आवहति या ९, ४२; ४३. पा ५,

१, ५०; आवहन्ति काश्रौ २२,

३, ३६; आपश्रौ; †आवहात्

माश्रौ १, ६, ४, २१; २, ५, ५, २१;

पाश्रु ३, १, २; बौध २, ६, १३;

†आवहान् या १४, २७; ऋप्रा

४, ७३; †आवहतु आपश्रौ ४,

a) द्रस. > षस. । b) वैप १ द्र. । c) विप. । गस. उप. कर्त्तरि कृत् । d) पा १, ४, ४८ परामृष्टः

द्र. । e) = गृह- । f) आवयः इति पाठः ? यनि. शोधः (तु. द्राश्रौ.) । g) परस्परं पाभे. । h) = आवसथ्य-

[बौश्रौ २, १७ : ४७ प्रभृ.] विप. च । i) अव^० इति पाठः ? यनि. शोधः । j) = अग्नि-विशेष- ।

तात्रभविकः यत् प्र. (पा ४, ४, ११०) । k) स्वार्थे यत् प्र. । l) पाठः ? आवसथे इति शोधः

(तु. सकक्षे सभायाम्, संस्कृतेः टि. च) । m) तु. अर्वा-वसु- । n) पाभे. वैप १ बृहस्पतेः

का २, ३, ३ टि. द्र. ।

१,८; बौश्री २०, १ : ३२; भाश्री
४, १, ११; हिश्री १, २, ५; या ७,
१६; भा(वहतु) ऋअ २, ७, ३७;
†भावहन्तु आश्री ५, ५, १४; १९;
आपमं १, १४, ६; अप १, ११,
४, ५; या ६, ४५; †भा...वहन्तु
आश्री ६, २, ३; शांश्री; या ६,
४; †भा(वहन्तु)आश्री ७, ४, ३२;
शांश्री १०, ७, ३; १२, ९, ११;
तुसू २, १० : १३; ११ : ५;
३, ४ : २; ऋअ २, १, १६;
१३४; ३, १९; वृदे ४, ५; भावह
आश्री १, ३, ६^२ × ×; शांश्री;
†भा...वह, > हा शांश्री १,
५, ७; आपश्री; †भा (वह)
काश्री २, ४, २६; युअ १, ६३;
भावहतम् माश्री ५, २, १३, १५^३;
भा...वहतम्, भा (वहतम्)^२
अप्राय ६, १; भावहत माश्री ५,
२, १३, १५^३; †भा...वहत, >
ता माश्री २, ५, ४, २४; जैश्री ९ :
९; †भा...वहानि आपश्री २४,
१३, ३; बौश्री ३, २८ : १२;
हिश्री २२, १, २^{१०}; †भावहत
आपश्री ८, २१, १; बौश्री ५,
१८ : १९; हिश्री ५, ६, ४; वाश्री
१, ५, ५, ७; †भावहः काश्री ५,
२, ११; वैताश्री ४, १३; भावेहन
भाश्री १, ११ : ६; भावहेत् कौश्री
२, ३, १९; ऋप; भावहेरन्^०
आपध २, १२, १; २; भावहेयुः
लाश्री ९, १, १४.
भा (वक्षि) वृदे ५, ४३; †
भावहिव्यामि शंध २०६;
भा...वक्षति या ७, १६; †भा-

...वक्षत् शांश्री ७, ९, ३; काश्री;
या ९, ४३^५; †भा(वक्षत्)
शांश्री १०, ७, ४; ८, ३; भा...
अवाट् आपश्री ४, २, १; भाश्री
४, २, ३; हिश्री १, २, ५;
भावाक्षुः आपमं १, ८, ६^{१०};
†भाबोडम् शुभा ४, ३१; याशि
२, १२; भा(बोडम्) शांश्री ११,
८, ३; †.
भावाहयति आश्री १, ३, ६;
शांश्री; भावाहयन्ति जैश्री २,
९ : ८; भावाहये अप ४१, २,
३; †भावाहयामि आमिश्री २,
४, ६ : १२^२ × ×; बौश्री; भावाहय
अप ४४, २, ९; गौपि २, ३, ३;
९; भावाहयत् वृदे ३, १३३;
भावाहयेत् आश्री २, १९, ८ × ×;
आपश्री.
भावाहयिष्ये शांश्री ४, ४, ११;
गौपि २, ३, २; ८; भावाहयि-
ष्यामि वैश्री ६६ : १०; काश्री.
भा-वह- -हः या ५, २६^५.
भा-वहत- -हन् शंध १८७.
भावहन्ती- -न्ती आश्री ६,
१४, १८; आमिश्री १, १, २ :
३७; बौश्री २, ६, ९; हिश्री १, ४,
४; -न्त्या बौश्री २२, १५ :
१०.
भा-वहन- -नात् या ५, २६.
भा-वहमान- -नाः कौश्री १, २, २;
शांश्री १, ६, ४.
भा-वाहन- -नम् आश्री १, ३, १७;
शांश्री; या ७, ८; -नस्य मीसू
१०, ४, ५१; -नात् आश्री ३,
५, ८; १४, ४; माश्री ५, २,

८, १३; हिश्री २१, २, १४;
-ने आश्री २, १८, ७ × ×; शांश्री.
भावाहन-काल- -ले आपश्री ८,
१४, १२; आमिश्री ३, ३, १ : २०.
भावाहन-प्रभृति- -ति बौपि २,
११, ५.
भावाहन-वत् मीसू ११, ४, २८.
भावाहना(न-आ)दि- -दि काश्री
६४, २; ६७, ३; ६८, ३;
६९, ३.
भावाहनादि-क- -कम् अप
३०^३, १, १५.
भावाहनादि-सुन्वच्-उद्-
-द्ः आश्री ५, ३, ७.
भावाहना (न-आ) ध्या (ध्य-आ)
दि^६ - -दौ वैश्री ६६ : ६.
भा-वाहयिष्यत्- -ष्यन् अप्राय
४, १.
भा-वाहि (त >) ता- -ताः शांश्री
३, २०, २०; -तासु शांश्री ३,
२०, २०.
भा-वाह्य आश्री १, ३, २२; शांश्री.
ओ(आ-ऊढ >) ढा- -ढासु आश्री ३,
१०, १९; माश्री १, ३, १, ४; हिश्री
५, ३, २५; ४, ४४; ७, ४, १६;
५, २४^१.
ओ(आ-ऊ)हिवस- -वांसम् माश्री
१, ३, ४, २^१.
ओ(आ-उ)ह्य बौश्री ४, १ : ३१ × ×.
ओ(आ-उ)ह्यमान, ना- -नम् आपश्री
१०, २९, ४; बौश्री ६, १६ : १२;
माश्री; -नायाम् आपश्री १४,
८, ६; हिश्री १०, ८, २१; -ने
आपश्री १०, २९, ७; १४, ८, ६;
माश्री २, १, ४, ३५; वैश्री.

a) भावह > [ऊढ-विषया] यनि. (तु. मै १, २, १५) पृ १८९ अनु-मत्- > इति कृत्वा h टि. नेष्टम्। b) णि इति पाठः? यनि. शोधः (तु. सपा. ऋ १०, ५२, १ प्रभृ.)। c) उपसृष्टस्य धा. विवाहे वृत्तिः। सप्र. हिष २, ४, ३६; ३७ वहेरन् इति पाठे.। d) पाठे. वैप १, ७०६। द्र.। e) पाठे. वैप १, ७०७। द्र.। f) पाठे. पृ ५२०। द्र.। g) इत्. > षस.।

आ/वा, आवाति वैश्रौ २०, १७ : ९;
 †आवातु शांश्रौ १६, १३, ४;
 दाश्रौ; अप १, ३६, ३१; या १०,
 ३५.

‡आवाः^b या १४, २.

आ-वाप- आ/वप्-द्र.

आ-वामदेव्य- न्यम् शांश्रु ६, २, ७.

आ-वाय- आ/वे-द्र.

†आवायन्^c आपश्रौ २१, २०, ३;
 हिश्रौ १६, ६, ४१.

आ-वाहन- प्रभृ. आ/वह्-द्र.

आविक-, क्य- रअवि-द्र.

आविक्षित-, ण्ति- अविक्षित्-द्र.

आ-वि/तन् > आवि-त्त- ते
 याशि १, ४८.

आ/विद्(ज्ञाने), आ...वेदात् वाधूश्रौ
 ४, ७५ : १८; ३०.

आवेदयते आपश्रौ १८, २२, ४;
 कागृ १५, ४; आवेदयति आपश्रौ

१०, ११, ५××; बौश्रौ; आवेद-
 यन्ते बौश्रौ १८, २० : २०;

आवेदयामि^d आमिगृ ३, १, २ :
 ४†; आवेदयामः या ९, ३१;

†आवेदयामसि या ९, ३१†;
 आवेदयेत् बौश्रौ २१, ९ : २६;

भाश्रौ १०, ७, ९; हिश्रौ २, १,
 ५४; ७, १, ५९.

‡आ-विद्^e- -विन् वाधूश्रौ ४,
 २८^f : ८; ३३ : १३; ६९ : ७;
 ७६ : ९.

२आ-विद्^f- -विदस्^g पागृ २, ६,

१६^h.

आ-वेदन- -नम् बौश्रौ २५, ३१ :
 १३; -नात् बौश्रौ २५, २९ :

१२; या ८, १५; मीसू ५, ३, २९;
 -ने बौश्रौ २१, ९ : २६.

आवेदन-वेला- -लायाम् वाश्रौ
 ३, २, ६, ६१.

आ-वेद्य हिश्रौ १५, ७, १३; बौगृ १,
 २, १.

आ/विद्(लाभे), आ(आ-अ)वित्सि
 आपमं १, १६, ५^h; †आ...अ-
 वित्सि आश्रौ २, १९, २२; ५,
 २०, ६; बौश्रौ १७, ३६ : १३;
 †आ(अवित्सि) शांश्रौ ३, १६, ६;
 कागृ ४९, १.

†आ-वित्तⁱ- -त्तः वाश्रौ ३, ३, २,
 ३४; शुप्रा ४, ८५.

†३आ-विद्^j- -विदि आश्रौ १, ९,
 १; शांश्रौ १, १४, ५.

४आ-विद्^k- -विदः आपश्रौ १८,
 १४, १०; हिश्रौ १३, ५,
 २३; -विद्भिः बौश्रौ १२, ९ :

१८.

†आ-विन्न^l- -न्नः आपश्रौ १८, १४,
 १०; बौश्रौ १२, ९ : १८; हिश्रौ

१३, ५, २३; तैप्रा ११, १५.

आविदूर्य- अविदूर-द्र.
 आ/विष् <व्य, आविध्यति काश्रौ

१५, ५, २२.
 आ-विद्ध- -द्धे^m शांश्रौ १६, १७, ४.
 आ-विध्य अप ३३, १, ८; वैगृ ५,

१४ : ७.

आविलⁿ- > ल-मण्डल^o- -लः
 अप ६३, २, ५.

आ-वि/लिख्, आविलिखेत् काश्रु
 ७, ३७.

†आ/विवास्, आविवासते अप्राय
 ६, ९; आविवासति आपश्रौ ९,
 १, ११; बौश्रौ ६, ३२ : ७; १६, ३ :

७; भाश्रौ; या ११, २३; आविवास
 आपश्रौ ८, १, ४; वाधूश्रौ ३, ५० :

२; आविवासेम या २, २४†.

आ/विष्, आविशते अप ७०^p, ३२,
 ४-६; आविशति बौश्रौ १६,
 २७ : १४†; बौध १, २, ५७††;

या १०, ४६; १३, ७; आविशन्ति
 बौध १, २, ५७††; आ...विशन्ति

कौस् २९, २७†; †आविशतु
 आपश्रौ ५, २, ४××; बौश्रौ; आ...

विशतु बौश्रौ १०, २६ : ६†;
 †आविशतात् आपश्रौ २२, १५,

११××; बौश्रौ; आपमं २, ४, ६^q;
 ८, १^o; आमिगृ १, ३, ४ : ८^o;

कागृ ४१, १८^o; भागृ २, २० :
 ६^o; २१ : १४^o; हिगृ १, १०, ४^o;

†आविशताम् भागृ १, २२, ११^o;
 वागृ ५, ३०; हिगृ १, १०, ६¹;

आविशन्तु आपश्रौ ५, १, ७†;
 †आ...विशन्तु आश्रौ ६, ३, १;

शांश्रौ; या ६, २४; †आ(विशन्तु)
 आपश्रौ ८, ७, १०; माश्रौ; या ६,

२४^p; †आविशस्व आपश्रौ १६,

a) °वतु इति पाठः ? यनि. शोधः (तु. सपा. ऋ १०, १८६, १) । b) शिवदत्तसंस्करणे यनि. पाठः (तु. आब्रा १, ९ तैब्रा २, ८, ८, १ तैब्रा ९, १०, ६ तैउ ३, १०, ६ वृपृ २, १८?), B.N. आवत् इति, ल. आवदः इति । वैप ३, १५४ h द्र. । c) पाठः ? आऽवयन् (किप. <आ/वे [प्रथने]) इति ?C. । d) सपा. आवेद° <> आवेश° इति पाभे. । e) उप. कर्तरि किप् प्र. । f) उप. भावे किप् प्र. । g) °दन् इति पाठः ? यनि. शोधः । h) पाभे. वैप १, ७१३ h द्र. । i) वैप १ द्र. । j) वैप १, ७०८ C द्र. । k) =निखाते काष्ठे उद्धित- (रथचक्र-) तु. मारा ५, १, ५, १; २; वैतु. भाष्यम् अ-विद्धे इति, C. आपश्रौ १८, ४, १०-११ अनु आ-वृत्ते इति शोधुः. । l) =कलुष- । व्यु ? । m) वि. 1 बस. । n) पाभे. वैप १, ७०९ f द्र. । o) पाभे. वैप १, ७०९ C द्र. । p) वैतु. भाग° इति या. प्रभृ. चिन्त्याः ।

१२, ११^२; बौश्रौ ३, १२: २३^०^b;
 माश्रौ ६, २, ६, २०; हिश्रौ ११,
 ५, ७^२; शांश्रु ३, ८, ३^b; पाश्रु
 ३, १, ४^b; वाश्रु १, ३१; जैश्रु
 १, २४: ६^b; ऋआविश आश्रौ २,
 ९, १०^b; १६, १९; ५, १३, १५^c;
 शांश्रौ; आपश्रौ १४, ११, २^c;
 हिश्रौ १०, ६, ९^c; कौश्रु ३, ५, १^b;
 आ...विश बौश्रौ ३, ८: २४[†];
 आ (विश) बौश्रौ ३, ८: २४[†];
 ऋआविशत शांश्रौ ७, १८, ९^d;
 आपश्रौ ७, १५, ७^d × ×; बौश्रौ ८,
 ६: १८^d; आविशत् कौश्रु ११३,
 २[†]; बृदे ८, २; आविशन् वाधुश्रौ
 ४, ६०: १; ६३: ४-७; ९; १०;
 आविशत् निसू १०, ११: ६; काश्रु.
 ऋआविश आश्रौ १०, ९, २^०;
 शांश्रौ ३, १८, १४; १६, ६, १^०;
 आपश्रौ; माश्रौ १, ६, ४, २५^b;
 कौश्रु ७४, १९^b; या २, ८, ३, १२;
 १०, ४६; १३, ७^२; आविशिश्रु:
 कौश्रु ९८, २[†].
 आवेशयति माश्रु १, १४, ८; २,
 ७, ४; ऋआवेशयामि बौश्रौ २,
 १०: ९; बौश्रु २, ११, २९;
 भाश्रु २, ११: १९; हिश्रु २, ११,
 १^f; ऋआवेशय कौश्रु ४३, १३;
 ऋआवेशयऽआवेशय अप ३६, ९,
 ३; आवेशयानि आश्रौ ४, १२,
 २^६; आवेशयेत् अप ३६, १२, १;
 आपश्रु ८, १०; हिश्रु ३, १४.
 आवेशयेत् मीश्रु ९, २, ४२.
 ऋआ-विशत्- -शन् आपश्रौ १९, ३,

४^b; हिश्रौ १३, ८, २९^b; आपमं.
 ऋआविशन्तो- -न्तो[†] कौश्रु २, १,
 २९; शांश्रु २, २, १.
 आ-विष्ट, ष्टा- -ष्ट: काश्रौ २५, ११,
 ३२; बौध ४, ८, १; या २, १४^३;
 ५, ८; -ष्टम् कौश्रु ११५, २[†];
 -ष्टा या २, १४; -ष्टा: माश्रौ
 ६, २, ६, २६[†]; वाश्रौ २, २, ५,
 १४[†]; माश्रु २, १४, १४.
 आ-वेश- -शात् काश्रौ २२, ३, ५०.
 आ-वेशय(त् >)न्तो- -न्तो वाश्रौ
 १, ४, ४, ४१[†].
 आ-वेशित- -तम् शांश्रौ १२, २४,
 ६[†].
 ?आ-वेशिना^k बौश्रु २, १, १९[†].
 आ-वेश्य शंघ १५८.
 आ√विष्ट> आ-विष्टि- -तम् हिश्रौ
 १५, ८, २४.
 आविष्यव- √अव् द्र.
 आविस् (र, ष्)[†] पाउश्रु २, १०८;
 पाग १, १, ३७; -ऋवि: आश्रौ
 ९, ९, ८; शांश्रौ; या ३, ५^२; ४,
 १६; ५, १९; ८, १५^३०.
 आवि: -पाद^m - -इम् आश्रौ ६, १०, ६.
 आवि:, ष्-पृष्ट[†] - -ष्ट: आश्रु २, १, ५;
 -ष्टम् आपश्रौ ६, २९, २१; ८, २,
 १०; बौश्रौ ५, २: १९; ६: १६; माश्रौ
 ६, १७, १०; ८, २, १६; वैश्रौ ८, ५:
 ७; हिश्रौ ३, ८, ८१; ५, १, २२.
 आविर्-√अस् (भुवि), आवि: स्यात्
 बौश्रौ २९, ३: १९.
 आविर्-आदि- -दीनाम् ऋत ४,
 १, १.

आविर्-ऋजीक[†] - -ऋ: शैशि
 ३३५[†].
 आविर्-√भू, आविर्भवति आपश्रौ
 १४, २४, १; बौश्रौ; आविर्भवेत्
 वैश्रौ २१, ३: २.
 आविर्भवत्यति बौश्रौ १८,
 ४०: १३; आविर्... भवत्यति
 आपश्रौ ७, ९, ८.
 आविष्-√कृ, आविष्कुरुते हिश्रौ
 १०, २, २२; या ४, १६^२;
 ऋआवि: - -कुरु द्राश्रौ १०, ३, ७;
 लाश्रौ ३, ११, ४.
 आविष्-कर्तोस्(ः) आपश्रौ १३,
 १५, ११.
 ऋआवि: -कुर्वाण- -णा: वैश्रौ १६,
 १८: ११; हिश्रौ ९, ४, २८.
 आविष्-कृत, ता- -ऋतस्य आपश्रौ
 २१, २०, ३; हिश्रौ १६, ६, ४१;
 -ता अश्रु ८ भू.
 आविष्-कृत्य वैश्रौ १६, १८:
 १६; हिश्रौ ९, ४, ३२.
 आवि(स्-त्य >) ष्य[†] - -ऋष्य: या
 ८, १५^३०; उश्रु ५, २; -ष्यस्य
 पावा ४, २, १०४.
 आवि: -सूर्य[†] - -र्ये आपश्रौ ६, १, २.
 ऋआ-√वी[†], आवयति अप ४८, १५^२;
 निघ २, ८.
 आ...वेत् आश्रौ ३, ७, १०[†]; आ
 (वेत्) ऋअ २, १०, ३१; बृदे ७, ३४.
 आवेवीरन् बौश्रौ १४, १०: १६.
 ऋआ-व्यास्^m - -या: अप ४८, ७५;
 निघ १, १२.
 आवी- २अवि- द्र.

a) ऋविश्वस्य इति पाठः? यनि. शोघः (तु. b टि.)। b) पामे. वैप १, ७०९ j द्र.। c) पामे. वैप १, ७१० c द्र.। d) पामे. वैप १, ७०९ l टि. द्र.। e) सकृत् सपा. मा २३, ४९; का २५, ९, ५; आविशेशोऽ इति पामे.। f) पामे. पृ ५५६ c द्र.। g) पामे. वैप १, ७१० p द्र.। h) पामे. वैप १, ७०९ c द्र.। i) पृ ५२० f द्र.। j) पामे. वैप १, ७११ b द्र.। k) पाठः? आवेशिनी इति संभाव्यते। l) वैप १ द्र.। m) वस. वा. किवि.। n) =उदक-। आसिः प्र. उत्सं. (पाउ ४, २२२)।

भा-वीत- आ/प्य द्र.

†आ/वृ(वरणे), आवृणीमहे आश्रौ
१, १०, १; आपश्रौ; या ४, २१;
आ...वृणीमहे आश्रौ ७, ११,
१४^२; १७^३; आ(वृणीमहे) आश्रौ
२, १६, ११; ४, ३, २; ११,^०
६××; शाश्रौ १०, ११, ८^{१०};
ऋअ.

१भा-वृत्-तस्य हिश्रौ २१, १, ६;
-ता: अप १, ८, ८.

१भा-वृत्त्य कागुउ ३९ : १५;
४० : २.

आ/वृ(आच्छादने), आवृणोति विध
३०, ४७^{१०}; वृदे २, ३३; या २,
१३.

भा-वरण-णम् आमिगृ २, ४, १० :
३६; अप ६२, २, ३.

२भा-वृत्, ता-तः आपश्रौ २२,
१२, ८; भागृ २, ५ : ६; अप
१३, ३, ७^{१०}; अअ १७, १^{१०};
-†तम् आपश्रौ ५, १०, ४;
माश्रौ; वागृ ४, ५^{१०}; -ता अप
६५, २, ३; अअ ९, ३^१; -ता:
बौश्रौ २, ११:६^१; आगृ ४, ७,
१६^१; पागृ २, १७, ९^१; अप
५२, ४, ४; ६८, १, ३१.

२भा-वृत्त्य कप्र २, ८, २२.

आ/वृञ्, आवृङ्क्ते या ५, २१.

†भावृञ् शाश्रौ ४, १३, १; ८,
२१, १; आपश्रौ २४, १३, ३^०;
बौश्रौ ३, २१ : ५; २८ : १६^०.

भा-वर्ग-गौ लाश्रौ ७, १०, २२.

भा-वर्जित-ते शौच ३, ९, ५.

आ/वृत्, भावर्तते आश्रौ ३, ३, ४;
शाश्रौ; या ९, २९^१; मीसू १२, १,
४४^१; भावर्तते शाश्रौ १३, १९, १२;
भावर्तन्ते आपश्रौ १०, २९, १;
बौश्रौ; या १४, ९, †भावर्ते शाश्रौ^{१०}
१, ६, ५; ४, १२, १०; माश्रौ; शागृ
२, ३, २^{१०}; भावर्तस्व कौगृ २, २,
१२^{१०}; भावर्तते वैश्रौ १८ ८:
७; भावर्तन्त वाधूश्रौ ४, २२ :
२; भावर्तते आश्रौ ३, ४, ७;
शाश्रौ; लाश्रौ ३, २, १३^१; भाव-
र्तेरन् आश्रौ ३, ३, ६××; आपश्रौ.
†भाववृत्स्व आश्रौ ४, ७, ४; कौसू
७२, १४^१; †आ(वृत्त्युः) शाश्रौ
१०, ७, ३; साअ १, ३४०^१; †आ
(वृत्त्याम्) आश्रौ ३, ८, १; ६,
१, २; ८, २, १६; शाश्रौ; वृदे ६,
१५४^१; अअ १८, १^१; (आ)
वृत्त्याम् ऋप्रा ८, ४१^१.

भावर्त्स्यति शाश्रौ ५, १०, २६.
भावर्तयते हिश्रौ १४, ३, ४१;
आमिगृ २, ३, ५ : १६; २८;
भावर्तयति काश्रौ ७, ८, ९××;
आपश्रौ; भावर्तयन्ते आपश्रौ १८,
४, २०; भावर्तयन्ति वाधूश्रौ ३,
८१ : ३; द्राश्रौ; भावर्तयामः
निसू ५, १० : ५^१; †भा-
(वर्तयामसि) आश्रौ ५, १४, ४;
८, १२, १६; शाश्रौ; †भावर्तयासि

बौश्रौ १५, ६ : १६; २४ : १४;
तैप्रा १६, १८; †भावर्तयन्तु
आपश्रौ १०, २७, ५; भाश्रौ
१०, १८, ११; माश्रौ; †भाव-
र्तय, > या बौश्रौ १४, १४:
१९^{१०}; आपनं २, २२, ७^{१०}; गो १,
८; चाअ १३:३; तैप्रा ३, १२^{१०};
†आ...वर्तय आपश्रौ ९, १९, ३;
बौश्रौ १४, १४ : १८; वैश्रौ;
भावर्तयेत् आश्रौ ४, १, २०××;
आपश्रौ; कौगृ ३, ९, ५१^{१०}; गौध
२४, १३^{१०}; भावर्तयेरन्
द्राश्रौ ६, ३, २७^{१०}; जैगृ २,
५ : १७; भावर्तयेयुः आश्रौ
७, ३, ४; लाश्रौ २, ११,
२०^{१०}.

†भाववृत्रन् आपश्रौ १०, १५,
१०××; बौश्रौ; या ७, २४^{१०};
भावर्तयिष्यत् निसू ५, १० : ७.
भावरीवर्ति या १४, ३^१.

भा-वर्त^१-तः वाधूश्रौ ३, ९९ :
५; -तम् अप २९, २, १;
-तानाम् बौश्रौ २६, २:२; -तेषु
कौसू ९३, ३१; -तौ कौगृ १, १,
१०; शागृ १, ५, ९; कौसू १२४, १.
भा-वर्तन-नम् निसू ९, ५ : १०;
कप्र २, ८, २१; शंघ १७९; -नस्य
चाअ १३:३^१; -नात् गोगृ १,
१, ३; द्रागृ १, १, २; -ने आपश्रौ
१३, २०, १; आपनं २, २२, ८;
बौगृ ३, ५, १८.

a) अ श्च इति पाठः? यनि. शोधः (तु. सपा. ऋ ८, १८, १६; C. च) । b) पामे. पृ ५०६ ० द्र. ।
c) पामे. वैप १, ७१३ d द्र. । d) पामे. वैप २, ३ खं. आभृत्तम् तैप्रा २, ७, १७, १ टि. द्र. । e) वैप १, ७१३
j द्र. । f) अभ्यावर्तते इति आन., व्यावर्तते इति जीसं., प्रयासं. । g) पामे. वैप १ परि. अन्भावर्ते तै १, ६, ६,
२ टि. द्र. । h) सपा. भावर्ते <> भावर्तस्व इति पामे. । i) सपा. भावर्तेत <> भावृत्त्य इति पामे. । j)
पामे. वैप १, १८३१ m द्र. । k) पामे. वैप १, ७१४ d द्र. । l) एकतरत्र उत्तरेण संघिर्षः । m) पामे. वैप
१, ७१४ m द्र. । n) सपा. शागृ ४, ८, १ वर्तयेत् इति पामे. । o) भावर्तयन् इति काचित्कः पामे. । p)
सपा. श्वेरन् <> श्वेयुः इति पामे. । q) उप. कन् प्र. । r) = ऋषि-विशेष-? ।

भावर्तन निवर्तन^०- -नाय आपमं
२,२२,८.
भावर्तना(न-अ)न्त^०- -न्तम् अप
४६,८,१.
भा-वर्तम् काश्रौ १९,३,१३;२०,२,
४;४,३१; वाश्रौ ३,२,३,३३;३९
भा-वर्तमान- -नः आपश्रौ १२,२७,
१२;१७,१३,२१; हिश्रौ १२,४,
४१; ऋश्रौ(वर्तमानः) बौश्रौ २८,
२ : ३१; आमिगृ २, ४, ६ :
२५; ५, १ : २२; ६, ८ : ४६;
वैगृ २, २ : १५; ४, १४ : २,
जैगृ २, ९ : २८; शुभ्र ३, २०२.
भा-वर्तयत्- -यन् आश्रौ १६, १९.
५; बौश्रौ; -यन्तः आश्रौ १२,
६, ११; १८.
भा-वर्तयित्वा आपश्रौ ५, १४,
१५××; आपगृ.
भा-वर्तयिष्यत्- -ष्यन् निस् ९, ५:९
भा-वर्तितव्य- -व्यम् वैश्रौ २१,
१३ : ८.
भा-वर्ति(त>)ता- -ता याशि १, ३४
भा-वर्तिन्^०- -र्तिं जैश्रौ २६ : १४;
-र्तिभिः निस् ८, २ : ४४; -र्तिषु
जैश्रौ ११:९××; जैश्रौका; लाश्रौ
२, ५, १८^०; ६, १, १५; निस् २, ७:
६. -र्तिनि क्षुस् २, ९:१०; निस्
२, ११:२०; १३:२२; ८, २:४४.
भावर्ति-नामन्^०- -मसु जैश्रौका
१२६.
भावर्ति-न्याय^०- -यः लाश्रौ २,
५, २७.^०
भावर्ति-मत-शुक्रिय- -येषु जंश्रौ
२६ : १२.

भावर्ति-स्थान- -नम् निस् १,
१३ : ४.
भावर्तिस्थान-गत- -ते लाश्रौ
६, ६, १२.
?भावर्त्य(र्ति-अ)ङ्गभाव- -वात्
निस् १, ११ : २९.
भा-वर्त्य काश्रौ ४, ९, १२××;
आश्रौ.
भा-वर्त्यमान- -ने आश्रौ ९, ९, ८.
भा-वर्तुत(त>)ती- -ती आश्रौ ५,
१, ९१.
१श्रौ-वृत्^०- -वृत् भाश्रौ ७, १,
९^२; -वृत्^० कौस् १४०, १६;
अप १९, ३, ५.
२भा-वृत्^१- -वृत् आश्रौ ५, ११, ५;
वाधुश्रौ २, १६, ४; द्राश्रौ ६, ४,
२; लाश्रौ २, १२, २××; मागृ;
-वृत्तः शाश्रौ ४, २०, ४; बौश्रौ;
कौगृ १, २१, २०^१; शांगृ १, २८,
२२; -श्रुतम् शाश्रौ १, ६, ५^२××;
आपश्रौ; -वृता आश्रौ ५, ३,
२५××; काश्रौ २, २, ४; पागृ ३,
११, २; -वृताम् शाश्रौ १, १,
१०; शांगृ १, ३, २; -वृति
लाश्रौ ७, १०, २३.
भावृत्-पर^०- -रः तैपा ८, ११.
भावृद्-उपचार- -रः कागृ
१३, ८.
भा-वृत्त, त्ता- -त्तः आश्रौ ११, २, ५
शाश्रौ; -त्तम् आपश्रौ २१, १५,
××; बौश्रौ; -त्तस्य काश्रौ
१५, ९, ९; निस्; -त्ताः आश्रौ
८, ६, २५××; शाश्रौ; -त्तात्
लाश्रौ ४, ८, २०; -त्तान् शाश्रौ

१२, २, २५; आपश्रौ; -त्तानाम्
शाश्रौ १३, २३, ४; द्राश्रौ; -त्तानि
बौश्रौ २६, २ : ११; -त्ताम्
निस् ५, १२ : २६; -त्तासु
आश्रौ ५, १, ९; शाश्रौ ६, ७, ३;
हिश्रौ १२, ८, २४; -त्ते आश्रौ
५, ९, १; द्राश्रौ; -त्तेन काश्रौ
१९, २, २; बौश्रौ २०, १७ : ६;
-त्तेः आपश्रौ १५, २१, ३^२;
भाश्रौ; -त्तौ निस् १०, ३ : ५.
भावृत्त-स्तोम- -मेषु शाश्रौ १२,
२, २५.
भावृत्ता (त-आ) वृत्त- -त्तेषु
आपश्रौ २१, २२, १०; हिश्रौ
१६, ७, २२.
भा-वृत्ति- -त्तिः शाश्रौ ३, २०,
१२××; काश्रौ; १, ८, २४; -त्तिम्
लाश्रौ ८, ५, १३; -त्तिषु द्राश्रौ
५, १, २३^०, लाश्रौ ६, ४, १०;
-त्तेः निस् ४, ५:१६; -त्तौ कप्र
३, ९, १५; मीस् ११, ४, ४२^०;
-त्त्या हिश्रौ २१, २, ६; लाश्रौ
७, ११, १; मीस् १०, ३, २५.
भावृत्ति-धर्म^०- -त्व- -त्वात् मीस्
१०, ५, ११; २५.
भावृत्ति-न्याय^०- -यः द्राश्रौ ५,
१, ३२^१; निस् ६, ७ : ५०.
भावृत्ति-मुख- -खयोः काश्रौ
६, १, २; -खेऽखे आपश्रौ ७,
२८, ७; हिश्रौ ४, १, १.
भावृत्ति-संख्यान- -नात् पाप्रवा
१, १०.
भावृत्ति-साधु^१- -धु निस् ५,
१० : ४.

a) विप.। कस.। b) विप.। बस.। c) =स्तोत्र-। d) सपा. °वृत्तिषु <> °वृत्तिषु इति पाभे.।

e) षस. वा सस. वा उप. =धर्म-। f) सपा. भावर्ति°<>भावृत्ति° इति पाभे.। g) विप.। कर्तरि प्र.।
h) पूर्वसूत्रे यजन्ते इत्यनेनान्वितं द्र.। i) गस. उप. भावे क्विप् प्र.। j) वृताः इति पाठः! यनि. शोषः
(द्र. शांगृ.)। k) तु. आन.। l) संस.।

भावृत्तिसाधु-स्व-स्वात् लाश्रौ
१०, ५, ६.
भावृत्ति-सामन्त^० - न्तेषु काश्रौ
१, ७, २५.
भावृत्ति-स्थान- -नेषु निस् ७,
५ : ३; ७ : ११.
३भा-वृत्य आश्रौ २, ४, ५××;
शाश्रौ; काश्रौ १०, ९, २९^०;
द्राश्रौ ७, २, १३^०.
१-२आ-वृत्- आ/वृत् द्र.
†३भा-वृत्^० - वृत् वौश्रौ १३, ३८ :
७; आमिष्ट २, ५, ११ : १२.
१आ-वृत्- आ/वृ (वरगे) द्र.
२आ-वृत्- आ/वृ (आच्छादने) द्र.
१आ-वृत्य आ/वृ (वरगे) द्र.
२आ-वृत्य आ/वृ (आच्छादने) द्र.
३आ-वृत्य आ/वृत् द्र.
आ-वृत्त-पूर्व^० - वर्म् सु २७, ४.
†आ/वृष्, आ(वावृवे)^१ शाश्रौ १७,
९, ५; बौश्रौ २५, २२ : ९;
आ(अवृषन्) याशि २, ८.
आ/वृष्, अवृष्, भावृष्मि आपश्रौ
४, ११, ५; भाश्रौ.
भावृष्ये वाधृश्रौ ४, ५ : ५.
भावृष्यते बौश्रौ १४, ४ : २;
७; १३:८; आ...वृष्यते शाश्रौ
१४, ५७, २०; बौश्रौ १४, ४ : २.
आ-वृश्चन- -नम् आपश्रौ ९, २०,
३; वैश्रौ २०, ३९ : ५; -नस्य
बौश्रौ २०, २५ : २१; -नानि
वैश्रौ ३, ४ : ९; -ने काश्रौ ६,
१, २०; आपश्रौ ७, २, ८; बौश्रौ
४, १ : २३; २४, ८ : ३; भाश्रौ

७, २, २; माश्रौ १, ८, १, १२;
वाश्रौ १, ६, १, १३; वैश्रौ १०,
२ : २; हिश्रौ ४, १, २४.
आवृश्चन- (ज >) जा- -जा
बौश्रौ २६, २३ : २.
आ-वृस्क^० - स्कम् कौस् ४४, ३६;
-स्कान् कौस् ४७, २८^१.
आवृस्क-ज- -जैः कौस् १६, २४.
†आ/वृष्, भावृष्न्ताम् आपश्रौ ३,
११, २; बौश्रौ १, २१ : २१;
भावृष्व आश्रौ ७, ४, ४; शाश्रौ
१८, ८, १३.
आ(१आ)वीवृषत् (?न्)^१ शाश्रौ
४, ४, १४; ९, ३.
†आ/वृषाय (<वृष-), भावृषायस्व
शाश्रौ १, १७, १५; कौस् ४०,
१८; अश्र ६, १०१; भावृषाय-
ध्वन् आश्रौ २, ७, १××; शाश्रौ.
आ(आ अ)वृषायिषत्^१ द्राश्रौ ६,
२, ५; लाश्रौ २, १०, ५; गोश्र ४,
३, १२; जैश्र २, २:१२; द्राश्र ३,
५, १९; कौस् ८८, २१; २२;
भावृषायी (१यि) षत्^१ आश्रौ २,
७, २; हिश्रौ २, ७, ४०.
आ/वृह > आ-वृह बौश्रौ १०, २४ :
१××; वैश्रौ १८, १४:४०.
आ/वृत्रे, भावयति बौश्रौ १२, १४:७; १५,
२५ : ५; ६:८; भावयन्ति काश्रौ
२०, ५, १६; आपश्रौ २०, १५,
१०; हिश्रौ १४, ३, २२; भावय-
ध्वम् वाधृश्रौ ४, ६७:२; भाव-
यन्त वाधृश्रौ ४, ६७ : ४; ६.
आ-वाय- पा ३, ३, १२२.

ओ(आ-उ)त, ता- -तम् काश्रौ १६,
५, १; -ता वाधृश्रौ ४, ६७ : १०;
-ता: बौश्रौ १२, १३ : ५; अश्र
६, २३^१; -ताभ्याम् वाध २,
३२; -ते बौश्रौ १०, ४७:३; १९,
२ : १५; वैश्रौ १९, ६ : २६;
कौस् २९, २०^१; अश्र ५, २३^१;
अपं २ : ५०^१.
आ-वेदन- प्रभृ. आ/विद् (ज्ञाने) द्र.
आ-वेदि- -दि लाश्रौ ५, १, ४.
आ-वेद्य आ/विद् (ज्ञाने) द्र.
आ-वेश- प्रभृ. आ/विश द्र.
आ/वेष्ट, आवेष्टयति बौश्रौ १, २ :
१७; ११, ८ : १२; भाश्रौ;
आवेष्टयेत् आपश्रौ ९, २०, १०;
भाश्रौ १, ४, ७.
आ-वेष्टन- -नेन कौस् ३६, ६.
आ-वेष्टित- -तानि वाधृश्रौ ४,
४० : २.
आ-वेष्टय आपश्रौ ९, १८, १६××;
काठश्रौ.
आ-वेष्टय- -ष्टयः बौश्रौ १२, २ :
१४.
†आव्य^० - व्यम् आश्रौ १, २, १;
बौश्रौ २, ५ : १०; १४, १० :
१५.
आ/व्यष् > †आ-व्याध^१ - वात्
आपश्रौ ३, १, २; बौश्रौ १, १७ :
२७; हिश्रौ २, ३, १; भाश्रौ ३,
२, ७.
†आ-व्याधि(न् >)नी-
नीभ्यः बौश्र २, १, १६.
आव्ययोः^१ वृदे ८, ८५.

a) द्रस. उप. = समन्ताद् भव-। b) आ-वृत्- > -वृत्ता इति कर्कः। c) पाभे. पृ ५५८ i d.।
d) वैप १ द्र.। e) अस. > बस.। f) वैप १, ७१६ ० द्र.। g) = छेदन-स्थान- (तु. भू XLII)। h)
स्क्वात् इति ? संस्कृतुर्मतम्। i) पाभे. वैप १, ७१६ 1 द्र.। j) वैप २, ३ खं. द्र.। k) = जावि, जयोः।
ए- > जयोः (जावृषे प्रपु १, उपु १ लिटि [एकारयोर्द्वयोः] स्थाने) इति च जी- > जावि [जावृषौ] इति च द्वे पदे
वाक्फलाः पठन्ति (तु. संस्कृतुः टि.)।

आ/वृज्, आशजति वैयाधौ १५, १४;
 कौस् ३८, १७; ३०; ३९, २६;
 ७९, २७; आ/वृजति वीधौ
 ११, १२ : ९; १२, १६ : १०;
 आशजन्ति वैयाधौ ९, २२; २४,
 ५; आशजत् द्राधौ १०, ३, १;
 लाधौ ३, १०, १९; निस् १०, ११;
 ६; अप ५४, २, ६; वाध १२, ४२;
 आशजेयुः शाधौ १३, १४, ६.
 आववृजतुः वाधूधौ ४, ७५ : १०.
 आ-वृजत्- -जतः माधौ ४, ३, ७;
 १४; -जताम् कौस् ७५, १८;
 -जन् माधौ ४, ४, ३२; जैधौका
 ७२.
 आ-वृजन- -नम् कौस् २६, ७.
 आ-वृजि(त>)ता- -तायै कौस् ३२,
 २९; ३४, २; ११.
 आ-वृज्य द्राधौ ४, १, १०; लाधौ २,
 १, ९; वैयाधौ.
 आ-वृजम् द्राधौ १३, ४, ५; १४,
 ४, १०; लाधौ ५, ४, ११; ८, १०.
 आ/वृश्, वृश्क-, वृश्चन-
 आ/वृश्च द्र.
 आ/वृश्क- अ-वृश्क- द्र.
 आ(आ/वृश्)श् (व्याप्तौ) > आशु-
 वान- -नाः या ३, १०.
 आ(आ/वृश्)श् (भोजने), आशत् वाग्
 ५, ४०; १७, २१.
 आ/शस्, पाधा. भ्वा. आत्म.
 इच्छायाम्, ऋशांसन्ते आपमं
 २, २०, २०^३; आश ४, १, ३;
 आशांसे सु १०, १.
 आशांसिषुः वृदे ७, ९६.
 आ-शांसमान, ना- -नः आपधौ २२,
 १०, २०; हिधौ १७, ४, ३९; ७,

१; -नानाम् कौस् ८८, १३;
 अप ४४, ४, ५१.
 आ-शांसा- -सायाः पावा ३, ३,
 १३२; -सायाम् पा ३, ३, १३२;
 पावा ३, ३, १३२; ५, ३, ६७.
 आशांसा-वचन- -ने पा ३, ३,
 १३४; पावा ३, ३, १३३.
 आशांसा-संभावना- -नयोः पावा
 ३, ३, १३२.
 आ-शांसु- पा ३, २, १६८; -ऋसूनाम्
 कौस् ८८, १३; अप ४४, ४, ५.
 ऋशा-शास्^१- -शासा शाधौ १८, ११,
 २; कौस् ४६, ६; अश ७, ५७;
 अप २ : ६९.
 ऋशा-शा^२- -ऋशया आधौ ४, १२,
 २; आपधौ २०, ९, ३; वीधौ १५,
 १७ : १३; -शा वाधूधौ ४, १० : १;
 १०; लाधौ ९, ८, १८; -शाः,
 -शानाम् काधौसं ४ : ९१; -शाम्
 अप ४२, २, ६; अपा १, २, १३१;
 -शायाः काधौसं ४ : ९; फि
 १८; -ऋशायै काधौसं ३ : ३;
 ४ : २; ५; ७; ८; ११; वाग्
 १३, १; कौस् ७४, ९; -०शे
 काधौसं ४ : ३१.
 आ/शाक्, आ (शक्याम्) ऋप्रा २,
 ७४१.
 आशकनुवन्ति या ७, ३०; आश-
 कनुयात् शंघ १३७.
 ऋशाशोक्तुः या ७, ३०१; ऋशाश-
 कत^३ भाधौ १०, १८, ९८; हिधौ
 ७, २, ८३; ऋशाशकाम भाधौ
 १०, १८, ८; हिधौ ७, २, ८३.
 ऋशा-शक्यै भाधौ १०, १८, ७;
 हिधौ ७, २, ८३.

आ/शाक्, आशकृत वाधौ १, ५,
 ४, ४४; निस् २, १ : २१; गौषि
 २, ७, ५.
 आ-श(क>)क्का- -क्कायाम् पावा
 ३, १, ७.
 आशक्का(क-आ)वाध-नेदीयस्-
 -यस्सु पा ६, २, २१.
 आ-शक्य- -क्यम् कौस् ९५-९६,
 १; अप ३७, २, १.
 आशन- अशनि- द्र.
 १, २ आ-शय- आ/शी द्र.
 आशयत्-, यित्वा ✓अश (भोजने) द्र.
 ?आशरीरम्^४- माधौ २, ५, ४, २४१.
 आ-शरीर-विमोक्ष^५- -क्षाय कप्र ३,
 ६, १४.
 आशव- आशु- द्र.
 आ/शस् (हिसायाम्) > आ-शासन-
 -नम् आपमं १, १७, १०१; -ने
 माधौ १, ८, ४, ९; ३७.
 आ-शस्य^६- -स्यः, -स्यम् गोश १, ४,
 २८.
 २आशा^७- शुप्रा २, ३९; -ऋशा आधौ
 ४, १२, २^३; आपमं २, २१,
 १३; शौच ४, ७२; -शाः आधौ
 २, १०, १८××; शाधौ;
 वैधौ १८, २ : ४४; निघ १,
 ६; या ६, ११; -शानाम् आधौ
 २, १०, १७; १८; ४, १२, २^३;
 आपधौ; -ऋशाभ्यः हिधौ १, ६,
 १३; निघ ४, ३; या ६, ११; -शाम्
 वीधौ १७, २३ : १२; वाधूधौ २,
 २ : १; वाग् २, ११; वृदे ४, ९३;
 -शायाम् कौस् १६, ३०; १२२,
 ३; -शायै कौस् ५१, २१; -शासु
 कौस् ११५, २१.

a) वैप १ द्र.। b) लुङि मपु३ रूपम्। c) षक् इति पाठः? यनि. शोषः (तु. हिधौ.)। d) पाठः ३
 (तु. पाठे. वैप १ शरीरम् वै २, ३९, ५ टि.)। e) अस. > षस.। f) = बलि-विशेष-। शस्यं मर्यादीकृत्य
 इति अस. सति मत्वर्थीयः अष् प्र. द्र.। g) उत्तरेण संधिरार्थः। h) पाठे. वैप १, ७१९ b द्र.।

भाशा(शा-अ)धिकारिक^a- -काणाम्
अप ६४,३,१.
भाशा-पति- -तये कौस् ५१,२१.
भाशा-पाल^b- -लाः हिश्रौ १४, १,
४६; -फं०लाः काश्रौ २०, २,
११; आपश्रौ २०, ५, ९; बौश्रौ
१५, ७ : १७; वाश्रौ ३, ४, १,
३०; हिश्रौ १४,१,४६; -लान्
अअ १,३१; -लेभ्यः आश्रौ २,
१०,१७×; आपश्रौ.
भाशापालीय^c- -यम् कौस् ३८,
११; अअ १,३१; -येन वैताश्रौ
३६,२०.
३आशा^d- -शाम् गोग् ४,२८.
भाशाग्रहोपघात^e- -तेषु अप ५८^३,
४,५.
भाशातिक^f बौश्रौ २७,९ : १.
भाशाप्रतिग(र>)रिन्^g- -री
बौश्रौ १४, १० : २१^१.
आ/शास्^h,भाशासावः सु ६, ५;
भाशासेत् वाग् १२,३.
भाशास्ते आश्रौ १,९,५^{१०}××;
शाश्रौ; आपश्रौ ८, २१, २^{११};
बौश्रौ ५, ९ : ३४^{१२}; भाशासते
माश्रौ १, ८, ३, ३३; विध
२९, २९; भाशासे आपश्रौ
१, २०, ११××; बौश्रौ; माश्रौ
१, ७, ८, ६^{१३}; आ/शास्त्व
शुप्रा ४, १४७^{१४}; भाशासीत
बौश्रौ १४, ३० : ३-६; २०,
२० : ३८; ३९; ४१.
भाशाशिवामहिⁱ आश्रौ ७,८,२;

८, १२, १७; शाश्रौ १०, १३,
१२; ११,६,२; १८,१२,५.
भाशाशासन,ना- -नः आपश्रौ
७,२८,२; बौश्रौ; -ना आपश्रौ
२, ५, २; बौश्रौ; -नाः आश्रौ
३, ३, १; शाश्रौ ५,१७,१; -ने
काश्रौ ३,४,१८६.
भा-शास्य कप्र ३,७,१७; अप १९^१,
४,५.
भा-शिस् (>ष्.र्)^b- -शिः^k वृदे
५, १७०; -शिषः शाश्रौ ४, ९,
१^{१५}; भाशापश्रौ; -शिषम्
भाशापश्रौ १,००,११××; बौश्रौ;
-भाशिषा शाश्रौ ४, १३, ३;
काश्रौ; -शिषाम् शाश्रौ ५, ३,
७; ६, १, २३; १०, १, १६;
-शिषि शाश्रौ २, ११, ६^{१६}××;
आपश्रौ; पा २, ३, ५५; ७३;
३, १, ८६; १५०; २, ४९; ३,
१७३; ४, १०४; ११६; ६, २,
१४८; ३, ८३; ७,१,३५; पावा
१, ३, २१; २, ३, १६; ३, १,
८६; ७,३,४५; -शिःपु^k आपश्रौ
४, १०, ६××; बौश्रौ; -शीः
आश्रौ ३, १३, १५^{१७}; शाश्रौ;
भाशापश्रौ ३, ६, १२^१; या ७,३;
१०, ४३; -शीःषु भाश्रौ ८,९,
१०; १४,७; हिश्रौ ५, २, ५८;
१३,४,१४; -शीषु भाश्रौ ८,
२३, ८; हिश्रौ ५, १, ३२; ३,
४७; ६,३; ६,३,१४.
भाशीः-पृथक्त्व- -क्त्वात् मीस्

१२,४,१.
भाशीः-प्रतिग्रहण^m- -णम् शुअ
१,११८.
भाशीः-प्रायⁿ- -यम् शुअ १,
२२८.
भाशीर्-धान^o- -नानि क्षुस् ३,
१४ : १८.
भाशीर्-नामक^p- -कः या ५,
२२.
भाशीर्-प(द>)दा^q- -दया
बौश्रौ ६, २५ : ८; वैश्रौ १४,
६ : ४; हिश्रौ ७, ५, १६; तैप्रा
५,१०.
भाशीर्-लिङ्ग^r- -ङ्गम् शुअ २,
४१२.
भाशीर्-वाचन- -नम् आमिग्
२,४,६ : ३६.
भाशीर्-वाद- -दः वृदे ५,
९१; ७, १०; ८,४४; या ७,३;
-दम् अप ८,२,३; आमिग् १,
६,३ : ३९; -वेषु वृदे ३, ८२;
५,९३.
भाशीर्वाद-प(र>)रा^s-
-राः वृदे ८, ९७.
भाशीर्वाद-बहुल^t- -लम्
वृदे ७,११८.
भाशीः-शब्द- -क्त्वात् निस् २,
४ : ३७.
भाशीस्-तन्त्र^u- -न्त्रम् लाश्रौ
६, ९, १२; निस् ६, २ : ३०;
७,२ : २९; ४ : ३४; १० :
२८; ११ : २८.

a) षस. उप. मत्वर्थीयष् ठन् प्र. । b) वैप १ द्र. । c) =सूक्त-विशेष- । d) =कृष्युपकरण-विशेष- ।
व्यु. ? । e) पाठः समासश्च ? । f) स्वरूपम् ? । g) या ६,८; ११,२३ परामृष्टः द्र. । h) पाभे. वैप २,
३खं. भाशास्ते तैप्रा १, ४, १०, ३ टि. द्र. । i) अशास्ते इति पाठः ? यनि शोचः । j) पाभे. वैप १,
७१९ n द्र. । k) छन्दोऽनुरोधात् ह्रस्वः द्र. । l) द्वि. विभक्तेर् लुक् द्र. (पा ७,१,३९) । m) विप. ।
उस. उप. करणे ष्युट् प्र. । n) विप. । बस. । o) पूष. अर्थः ? । साम-विशेष- इति
स्यात् ।

आशीः-संयोजन^०- नौ बौश्रौ
 २५,६ : ६.
 आशीः-समाय^०- याणि निस्
 ४,१२ : १५.
 आशीः-समृद्धि^०- द्विः निस् २,
 ४ : ३१.
 आशीः-साधकतर^०- राणि निस्
 ६,५ : २०.
 आशीः-सामन्- मनी निस् ८,
 ७ : ४०.
 आशीः-स्तोम^०- मः निस् ६,
 ११ : २; -मम् निस् ६,१२:४.
 आशीः-स्थान^०- नम् निस् २,
 ४ : ३६; ८ : १४; २०; ६,
 ११ : ३६; -ने आश्रौ ४,२,७;
 निस् ७,१ : २४.
 आशित-^०तंगवीन- तंभव ✓अश
 (भोजने) द.
 १आशिन- ✓अश (व्याप्तौ) द.
 २आशिन- ✓अश (भोजने) द.
 ऋशांशिन^०- नेभ्यः आपश्रौ २४,
 १३,३; बौश्रौ ३,२८:१५.
 आशिमन्- आशु- द.
 आ-शिर^०- पा ६, १, ३६; -शिरः
 बौश्रौ १४, ९ : ४९; २१,२२ :
 २४; -शिरम् काश्रौ १०, ३,
 १२; ५, ३; आपश्रौ ११, २१,
 ८; १३,१०,८; १०; २२,१७,
 १; बौश्रौ ८,८ : ८; ९ : ३; १;
 १० : १६; ११,८ : ९; १२,
 १३ : ९; १६,२१ : ११; १८,
 १४ : ९; २९ : १५; २१,२२ :

२६; माश्रौ २,५,१,११; १३;
 २५; वाधूश्रौ ४, ३९ : १०;
 वैश्रौ १६, १०:७; ९; १२:११;
 १४; द्विश्रौ ९, ३, ३३; लाश्रौ
 ८,१०,१३; वैताश्रौ २२,१६;
 ऋया ६,८; ३२; -शिरा आश्रौ
 १,७, ७; शाश्रौ १, ११, १^३; १;
 बौश्रौ ३, २९ : १०; -शिर
 काश्रौ २२, १०, १; आपश्रौ ११,
 ४, १०; २२, १०, ७; काश्रौसं
 २९ : २२; माश्रौ २, २, ५, २८;
 ऋवश्रौ १४, २० : ५; १७, ८ : ९;
 द्विश्रौ ७, ८, ६८; १७, ४, २६;
 २७; ६, ३९; -ऋशीः काश्रौ
 १०, ५, ३; आपश्रौ ४, १०, ६;
 माश्रौ २, ५, १, २५; वैताश्रौ २२,
 १६; निघ ४, ३६; या ६, ८; ६.
 ऋआशीर्-दा^०- दा शुपा ४, ३३;
 -दाः आपश्रौ ४, १२, १०; बौश्रौ
 १०, ४९ : २१; माश्रौ ४, १८,
 ७; वैश्रौ १९, ६ : ६५; द्विश्रौ
 ६, ३, २०; १२, ३, १४.
 ऋआशीर्-वत्^०- वत्ः काश्रौ १०,
 ५, ९; १०; आपश्रौ १३, १२, २;
 बौश्रौ ८, १२ : १३; १७; २२;
 २४; माश्रौ २, ५, १, ३२; वैश्रौ
 १६, १३ : १२; १६; द्विश्रौ ९,
 ३, ४६; ४९; -वन्ति काश्रौ
 २२, ९, ८; -वान् आपश्रौ ४,
 १२, १०; माश्रौ ४, १८, ७;
 द्विश्रौ ६, ३, २०.
 १आशिर- आशिर- द.

२आ-शिर^०- -रे मीस् ११, ३, ४०.
 आशिर-दुष्- दुष्ः आश्रौ १२, ८,
 ३४.
 आशिर-वत् मीस् ११, ३, ३८.
 आ-शिस- आ ✓शास्त्र द.
 आ ✓शी^०, ऋआ(आ-अ)शयत्
 बौश्रौ १४, १५ : ११; या २, १६.
 आशेते या ११, ४८; ऋआशये^०
 माश्रु २, १८, २^२; या ६, १२.
 १आ-शय^०- यम् वाधूश्रौ ४, २९ :
 १३; -यात् बौश्रौ १८, ४५ :
 २६; वैश्रौ २०, ३७ : ८; द्विश्रौ
 १५, ८, १८; -यान् बौश्रौ २०,
 १२ : ११; -ये बौश्रौ ५, १३ :
 १३; १४ : २८; ९, ४ : १०;
 १०, ७ : १२; १० : ८; बौपि २,
 ११, ८; कौस् ३६, ३७; १०६, ७;
 -येन निस् ४, १२ : २५; -येषु
 बौग २, ११, ४२; ३, १२, ५; ८;
 बौपि २, ९, २१; ११, ८; १२, ४.
 २आ-शय^०- यम् आपश्रौ ६, २९,
 २२; माश्रौ ८, ३, ३; द्विश्रौ ५,
 १, २८; -यस्य बौश्रौ २१, २ :
 १; माश्रौ १, ६, ४, १९; ६, २, ५,
 १७; -यात् बौश्रौ ५, ८ : ३०;
 ३६; -येन माश्रौ १, ६, ४, १९;
 २, ५, ४, २८; ६, २, ५, २०; आश्रु
 २, १, ६.
 आ-शीर्त्- आ ✓शृ द.
 आशीषिष^०- षः अप्रा ३, ४, ११.
 आशु^०- पाठ १, १; पाग ५, १, १२२^०;
 -ऋशवः शाश्रौ ९, १९, ३; या

a) विप. । बस. । b) पूष. अर्थः ? । साम-विशेष- इति स्यात् । c) वैप १ द्र. । d) ऋण इति पाठः ?
 यनि. शोषः (तु. ता १८, ५, १२ काश्रौ २२, १०, १ प्रमृ.) । इहैव ऋणम् > शतम् इति शोषः द्र. । e) पामे. वैप
 १, ७२१ d द्र. । f) = आ-शिर- । g) या २, १६ परामृष्टः द्र. । h) वैप १, ७२१ k द्र. । i) = स्थान- । उप.
 अधिकरणे कृत् । j) पामे. वैप १ परि. अञ्ज-पति- > -ते टि. द्र. । k) अर्थः व्यु. च ? । l) = यस्मिन्
 पुरोडाशः क्षायितस्तद्- । आज्य-विशेष- (तु. भाष्यम् [आपश्रौ ६, २९, २२ आश्रु २, १, ६ प्रमृ.]) । m) आशु-
 इति पाका. ।

९,९६; शुभा ४,६५; -ञ्जु शाश्रौ
१२, १९, ४५; अत्राय; कृया ५,
३; ६, १; १२××; -ञ्जु: आश्रौ
१, १२, २०५; काश्रौ; निघ
१, १४५; -कंशुम् आश्रौ २,
१९, २२; शाश्रौ ८, १८, १९;
माश्रौ; -श्रुताम् काश्रौ १५, ४,
६०.

भाशव-भाशिमन्- पा ५, १, १२२.

भाशु-क^०- कानाम् बौश्रौ २६,
११: १४.

भाशु-ग^०- ग्ना: बौश्रौ १, १८:
१९.

भाशु-पत्वन्^०- स्वा शाश्रौ १२,
१९, ४५.

भाशु^०-पिष्ट- दानि बौश्रौ १५,
३०: ११; २६, ११: १४.

भाशुया^० शुभा ५, २०५.

कंभाशु-हेमन्^०- ०मन्^० बौश्रौ ११,
६: २३; १३, ३९: ४; वाश्रौ
३, १, १, २७; वैश्रौ १७, ११:
६; हिश्रौ १३, १, २८; -मा
आपश्रौ १६, ७, ४; वैश्रौ १८,
५: १; हिश्रौ ११, २, २.

भा/शुच्, कंभा...शुशुधि आमिष्ट
३, ७, १: १५^१; बौपि १, १७:
१४^१; अप्रा ३, २, ११.

भा-शुशुक्षणि^०- पाउ २, १०३;
-कणि: अप ४८, ११५; निघ ४,
३; या ६, १६; १३, १; शुभा ५,
३७.

भा-शुशोचयिषु- षु: या ६, १.

भा/शु, शु (श्रवणे)^०, भा...शुधि
>धी या ७, ६५.

भाशुगोमि सु ११, ३; भा...
शुगोतु या १२, ४६५; कंभाशु-
शुधि>धी आश्रौ २, १४, ३१;
शाश्रौ १, १७, १९; भा...शुगुहि
या ९, २६५; ओ(आ-उ)...
शुगुहि आश्रौ ८, १, १२५;
भा...शुगवाम>मा या २,
२७५.

भाशुशुबु: या २, २६.

भाश्रावयति आश्रौ १, ४, १२;
आपश्रौ २, १५, ३××; बौश्रौ;
भाश्रावयन्ति सु १६, २; कंभा-
श्रावय आश्रौ १, ३, २३^२; आपश्रौ;
भा(श्रावय) आपश्रौ ८, १५, १०;
वैश्रौ ९, ७: १५; बौश्रौ २१, ५:
१२; माश्रौ ८, १८, ७; १४; २१;
१९, ४; हिश्रौ ५, ४, ६६^३; कंओ
श्रावय काश्रौ ३, २, ३; आपश्रौ २,
१५, ३; बौश्रौ; ओ(श्रावय) बौश्रौ
५, १४: ३; ९; १४; २१; २१, ५:
१२; भाश्रावयेत् आश्रौ ९, ७, ९;
आपश्रौ २, १६, ३××; बौश्रौ.
कंभाश्रावयिष्यामि आपश्रौ २,
१५, ३; माश्रौ.

भाश्राव्यते वाधूश्रौ २, ४: ३.

कंभा-शुण्वत्- ण्वन् वागृ ५,
२२५^०.

भा-श्रावण- णम् आश्रौ २, १९,
१८५; माश्रौ २, १, २, ३३; -णात्
काश्रौ ३, ३, १३; आपश्रौ २, १६,
२; काठश्रौ १३०; बौश्रौ ८, ४: ४;
वाश्रौ १, १, १, ४७; हिश्रौ २, २,
४; -णाय वाश्रौ १, १, ११; -णे
बौश्रौ ८, ४: ४; १६, ३: २८;

२०; १२: २३; २१, ५: १२;
-णेषु हिश्रौ २, १, ४८.

भाश्रावणा(ण-अर्थ)>धी- षे
बौश्रौ २२, १६: २०; २५.

भा-श्रावम् काठश्रौ १३८; माश्रौ
१, ३, २, २; ४, ४××; हिश्रौ;
भाश्रावम्ऽभाश्रावम् आपश्रौ २,
१७, ४; ३, ५, १; ११, १९; ५.

भा-श्रावयत्- -यतो: माश्रौ २, ४,
२, ९; -यन् आश्रौ ४, १५, ११.

भा-श्रावयिष्यत्- -ष्यन्तम् आश्रौ १, ३,
२३.

भा-श्रावित- -तम् आपश्रौ ३, ११,
२; बौश्रौ १, २१: ९५; २७,
१: ६; माश्रौ ३, १०, २५; वैश्रौ
२०, २४: १०; हिश्रौ २, ६, ३५;
वैगृ १, १९: ५५; -ते काश्रौ ३,
३, १४; आपश्रौ २, १६, २; बौश्रौ
१६, २: १; माश्रौ १, ४, १, २६;
हिश्रौ २, २, ४; दाश्रौ १४, ३, ५;
लाश्रौ ५, ७, ४.

भाश्रावित-प्रत्याश्रावित-वषट्का-
र- -राणाम् बौश्रौ २७, १: ५.

भा-श्राव्य काश्रौ ३, २, १७××;
आपश्रौ; भाश्राव्यऽभाश्राव्य
काश्रौ ९, ८, ७; ११, ७; माश्रौ.
भाश्राव्य-प्रैष- -षे काश्रौ १, ९,
१४.

भा-श्राव्य- -व्य: वृदे २, १४२;
-व्यम् वैश्रौ २०, २४: १०.

कंभा-श्रुत्- >त्-कर्ण^१- -कं०णं
आश्रौ ७, ८, ३; शाश्रौ १२, २६,
६; कौगृ १, २०, ६; या ७, ६.

a) पांसे. वैप १, ७२२ ० द्र. । b) =वीहि-विशेष- । c) विप. । उस. उप. <√गम् । d) वैप १
द्र. । e) पांसे. वैप १, ७२३। द्र. । f) श्रुधि इति पाठः ? यनि. शोषः (तु. सपा. ऋ १, १७, १) । g) पा
१, ३, ५९ परामृष्टः द्र. । h) भा...कृ० इति पाठः ? यनि. शोषः (तु. सपा. ऋ २, २३, १ [वैप १ परि. द्र.]) ।
i) विप. । वस. ।

आ-श्रुत- -तम् भाशि १८१;
-ताय आश्रौ ५, २०, ८; -ते
वाश्रौ १, १, १, ४७.
आश्रुत-प्रत्याश्रुत- -तानि
आपश्रौ ८, १५, १२; १८, २१,
१५; वैश्रौ ९, ८ : ४; -ते काश्रौ
५, ९, ९१; आपश्रौ २, १५, ६;
२१, १०, ८; २४, ३, १३; वाश्रौ;
-तेषु काश्रौ ३, २, ६; वाश्रौ १,
१, १, ८१; हिश्रौ १६, ३, २१.
आश्रुत-प्रत्याश्रुत-प्रवर-संवाद-
संग्रह- -वैः आपश्रौ २४, १,
१०.
आश्रुत-प्रत्याश्रुत-श्रैष- -षाः
काश्रौ ९, ९, १५.
आ-श्रुति- -तिः बौश्रौ ९, ७ : ८;
-ऋश्रै आश्रौ ५, १८, १३; शाश्रौ
८, २४, ३.
ओश्रावय^२- -ये पावा ८, २, ९२.
ओश्रावया(य-आ)श्रावय-
-ययोः पावा ८, २, ९२.
†आ/श्रु, श्रि(संमिश्रणे), आ...
श्रीणन्ति बौश्रौ १०, २१ : ९;
३६ : १४; १९, ४ : ८; आ...
अश्रीणीत आपश्रौ १२, १४, १५;
हिश्रौ ८, ४, १७.
आ-शीर्त- पा ६, १, ३६.
आ/श्रो, आशिशीहि या ५, २३१.
आश्रोकेय-, श्रि- २अशोक- द्र.
आश्रौच- प्रश्रु. अ-शुचि- द्र.
आश्रय^१- -यम् या २, २४; ११, २;
ऋत ४, ७, १; पा ६, १, १४७;
पावा ६, १, १४३.
आ/श्रुत्, आश्रोतवेत् माश्रौ ५,
१, ६, ३९; ९, २५.
आ-श्रोत्य आपश्रौ १५, १८, १०;
माश्रौ ११, १८, ११.

आश्रुवान- आ(आ/अ)श्र(व्याप्तौ)
द्र.
आश्रमकि-, आश्रमन्य-, आश्रमभा-
रिक्-, आश्रमरथ-, आश्रमथी-,
आश्रमरथ्य-, आश्रमायन-, आ-
श्रमिक-, आश्रमेय- अश्रमन्- द्र.
आश्रय- ✓अश्रु(भोजने) द्र.
आश्र-(>श्रिन्-)श्र, आश्र- टि. द्र.
आ-श्रपण- आ/श्रा द्र.
आ/श्रम् >आ-श्रम- पाग २, ४,
३१; -मम् बौध २, १०, १५१;
१६; ३, ३, २०; वैध १, ६, २;
वृदे ५, ६४; -माः वाध ७, १;
आपध २, २१, १; वैध १, १,
१०; हिध २, ५, १०९; गौध
११, ३१; -माणाम् वाध ८,
१४; आपध २, २४, १४; विध
१, ४८; हिध २, ५, १७८; -मात्
सु ७, १; बौध २, १०, १५१;
१६; -मान् आपध २, २३, ९;
हिध २, ५, १६२; गौध ११, ९;
-मे वृदे ६, ९९; -मेषु विध
९६, १; वैध १, ९, २.
आश्रम-धर्म- -र्मैः बौध ३, १०,
१; गौध १९, १.
आश्रमधर्मा(र्म-अ)विरोध-
-धेन शंध १३२.
आश्रम-धर्मन्- -र्माणि वैश्र २,
८ : ७; १२ : २६.
आश्रम-विकल्प- -ल्पम् गौध
३, १.
आश्रम-स्थ- -स्थाः वाध ३,
२०; बौध १, १, ८.
आश्रमा(म-आ)गत- -तम् वाध
९, ७.
आश्रमा(म-आ)चार-संयुक्त-
-क्तान् विध १, ६२; ६३.

आश्रमा(म-अ)नुकृति^८- -तयः
आश्रिगृ २, ५, ३ : ४७; बौगृ
३, ७, २९.
आश्रमा(म-अ)न्तर-गत- -ताः
वाध १७, ५२.
आश्रमा(म-अ)न्तर-हित-
-तानि आश्रिगृ २, ७, १० :
१३.
आश्रमिन्- -मिणः वाध ८,
१५; वैध २, १३, ३; गौध २८,
५०; -मिभिः बौध २, १०,
५७; -मी विध ९६, १.
आ/श्रा > आ-श्रपण- -णात् या
६, ८.
आ-श्रावण-, श्रावम् प्रश्रु. आ/श्र
(श्रवणे) द्र.
आ/श्रि. आश्रयति वाध १७, १९;
आश्रयन्ते अप ५१, १, १; आश्र-
यित गौध १०, ६०; आश्रयेत्
आश्रिगृ २, ७, १० : ६; शंध
१५८; विध ३, ४; ६; ३९.
आ-श्रय- -यः कप्र १, ६, १; वृदे
१, १००; १३०; -याः वृदे १,
१०९; २, ९; -यात् ऋषा ११,
१४; पावा १, १, १२; ८, २, ४;
मीसू ४, १, २०; -ये वृदे १,
१२४; २, १०; पा ३, ३, ८५;
पावा १, १, ५६; -यौ वृदे १,
१०८; ११४; २, १.
आश्रय- -ये पावा ६, १, ९२.
आश्रय-त्व- -त्वात् पावा
१, २, २२; ३, १, ४५.
आश्रय-तम्(ः) पावा ४, १, ३.
आश्रय-स्थान-भागिन्- -गिनः
पाशि २१.
आश्रया(य-अ)भाव- -वात्
पावा १, ४, १.

भा-अयण- -गात् या ६, ८.
 भा-अयत्- -यन्तः बौध ३, ३, ४.
 भा-अयिन्- -यिषु मीसू ४, १, १८.
 भाश्रयि-त्व- -त्वात् काश्रौ १, ३, २९.
 भा-श्रित, ता- -तः बौध १, ५, ६६;
 वृदे १, १०७; -तम् जैगृ २, ९ : ३७; वृदे १, १०५; २, ४२;
 या ५, २२; पाशि ७; -ता वृदे १, १११; २, ७९; -ताः अप ५२, ६, ३; ९, ५; ५८, १, ४;
 -तात् नाशि १, २, ८; -तौ वृदे २, ८.
 भाश्रित-त्व- -त्वात् मीसू २, १, ४; ६, ३, ११; ८, १, २३; ९, २, ११.
 भा-श्रित्य वैगृ ४, २ : ९; वाध.
 आ०श्रि(=रि)ष् > आ-श्रे(ष>)-
 षा^१- ऋ-षाभ्यः बौश्रौ २८, ४; ३;
 बौगृ ३, १०, ५; वैगृ ३, २० : ५; -पासु बौगृ ३, १०, २.
 आ०श्री आ०शृ(संमिश्रणे) द्र.
 आ०श्रु, आश्रुत्-कणे- प्रमृ. आ०श्रु द्र.
 आ०श्रिष्, आश्रिष्यति आपश्रौ १८, १५, ४; आश्रिष्यतः पावा ३, १, ८७; आश्रिष्येत् हिश्रौ १३, ६, ३९; गौध २३, १०.
 ऋआशिश्लेष^२ काश्रौ ३, ८, १;
 आपश्रौ ३, १०, १; बौश्रौ १, २० : १९; भाश्रौ ३, ९, ६; हिश्रौ २, ५, २८.
 आश्लेषयेत् काश्रौ ५, ३, ७;
 आपश्रौ १४, २३, ५; वैश्रौ २१,

१० : ७; १०; हिश्रौ १५, ६, ६;
 द्राश्रौ ५, ४, २५; लाश्रौ २, ८, २५; मागृ १, २१, ११५.
 ऋआ-श्लिष्ट- -ष्टः आपश्रौ १२, ११, १०; हिश्रौ ८, ३, ३१.
 भा-श्लिष्यमाण- -णौ आपश्रौ २१, १९, ५.
 आ-श्लेष, षा^३- -षा अप १, १, २; ५, २; १२, १; -षाः अप १, २, १; ४, २; ११, २५; ५७, ३, १;
 -षे अप ४८, ५४^८.
 आश्लेष-कर्मन्^४- -र्मणः या ४, १०.
 रआश्व- १अश्व- द्र.
 रआश्व- २अश्व- द्र.
 आश्वकायन- २अश्वक- द्र.
 आश्वतराश्वि- १अश्व- द्र.
 आश्वत्थ- १अश्वत्थ- द्र.
 आश्वत्थि- प्रमृ. २अश्वत्थ- द्र.
 आश्वत्थिक- १अश्वत्थ- द्र.
 आश्वपत्-, °पालिक-, °पेजि, यिज्-, °भारिक-, °मेधिक-, °मेधिकी-, °युज-, °युजक-, °युजी-, °युज्य- १अश्व- द्र.
 आश्वलायन- अश्वल- द्र.
 आश्ववत्- अश्ववत्- द्र.
 आश्ववाल- १अश्व- द्र.
 रआश्वश्चि^५- -यम् बौश्रौ १८, १४ : ४५.
 आ०श्वस्, आश्वसयति वाश्रौ ३, ४, ३, ३९.
 आ-श्वस- > आश्वसिक^६- -काः बौश्रौ २१, ७ : ३.
 आ-श्वसन- नम् विध १९, २४.

आश्वसूक्त- १अश्व- द्र.
 आश्वायन- २अश्व- द्र.
 आश्ववतान- अश्ववतान- द्र.
 आश्विक- १अश्व- द्र.
 रआश्विन- १अश्व- द्र.
 २आश्विन- २अश्विन- द्र.
 आश्विना^७- > °ना-नृच^८- -चात् वृदे ३, १०२.
 र-२आश्विनी- २अश्विनी- द्र.
 आश्वीन- १अश्व- द्र.
 आश्वेय- २अश्व- द्र.
 आश्व्य- १अश्व- द्र.
 आप^९- > आप-कार- > °र-णि- [नि]घन^१- नम् लुसू १, ४ : १४; लाश्रौ ६, ११, ४; -नात् द्राश्रौ ८, १, ३३; लाश्रौ ४, ५, २६.
 रआ-षडह-मात्र- -त्रः निसू ६, २ : १०.
 रआषाढ- १अषाढा- द्र.
 २आषाढ- २अषाढा- द्र.
 आषाढी- प्रमृ., आषाढीय- १अषाढा- द्र.
 रआ-षोडशिक^२- -कः निसू ९, १ : ४१.
 आपृक- १अपृक- द्र.
 आपृम- आपृमिक-, आषादंष्ट्र- प्रमृ. १अपृन्- द्र.
 आपृि- २अपृन्- द्र.
 आपृिक- अपृि- द्र.
 रआपृ- पाठ ४, १६०.
 २आ(ष्ट् >)ष्ट्री^३- -ष्ट्याम् मागृ २, १७, १; ऋप्रा १४, ४०; वृदे ८, ६८.

a) वैप १ द्र. । b) पाभे. वैप १, ७२५ III द्र., यत्र काश्रौ. यनि. शोषः । c) भाप. । d) विप. । बस. । e) वैप १, ७२३ IV द्र. । f) अर्थः ? । मतुवर्थायः ठन् प्र. (तु. [अंशतः] ?) C. आश्वसकामाः इति पिपठिषुः । =आश्वसित्-, प्रत्येत्- इति भाष्यम् ? । g) यनि. <आ(आ-अ)श्विना (ऋ १, ३०, १७) । h) कस. । i) =शब्दानुकृति- । व्यु. ? । j) =साम-विशेष- । बस. । k) पाठः ? अ-षो इति शोषः (तु. सप्र. निसू ८, ४ : २४) ।

भास्(ः)^a पाग १,४,५७.

√भास् पाधा. अदा. आत्म. उपवेशने,
भास्ते आश्रौ १,१२,१६××; शाश्रौ;
भासाते आपश्रौ ७, १७, १××;
वैश्रौ; भास्ते आश्रौ ४, १, ८××;
शाश्रौ १२, १४, ४^b†; आपमं
१, ७, ८†; भास्से वाधूश्रौ ३,
१४, १६; १९; भास्सै वाधूश्रौ ३,
१४ : १५; भास्ताम् बौश्रौ ६,
१० : २०†; वाधूश्रौ ४, ३३ :
१३; वाश्रौ १, ६, ५, १०†; आगृ
२, ८, १६^d; पागृ १, ३, ४; आगृ
३, ४, ४ : २७†; वौषि ३, ४, २१;
तैप्रा ४, ५२†; भासाताम् वैगृ ३,
५ : ७; भास्व द्राश्रौ ११, १, १०;
लाश्रौ ४, १, १०; कौस् ८७, १२;
भाद्भव^e कौस् ८८, १४†;
भासत आश्रौ ८, १३, ७; आपश्रौ;
भासीत आश्रौ १, १२, ७××;
काश्रौ; वैताश्रौ ९, १२^f; भासी-
याताम् शागृ १, १७, २; भासीरन्
शाश्रौ १३, १४, १××; काश्रौ.
†भासिष्यते आश्रौ १, १२, ९;
कौस् ३, ८; १३७, ४०; भासिष्ट
आश्रौ १, १३, ६; भासिषत
वाश्रौ ३, २, ५, ३४; ३५.
१भासन^g— पाग २, ४, ३१; -नम्
आश्रौ १, १, २५; शाश्रौ; गौध
९, ५०^h; -नात् आश्रौ ४, १५,
१०; बौश्रौ; -नानि बौश्रौ ९, १९:
५××; लाश्रौ; -नाभ्याम् बौश्रौ
७, ११ : ४; -नाय बौगृ २, ११,
६३; -ने आश्रौ २, १७, १०××;

शाश्रौ; -नेन हिगृ २, २०, ३;
-नेभ्यः बौश्रौ ७, ११ : ११; १७;
-नेषु वैताश्रौ ३६, २२; आगृगृ.
भासन-गत- -तानाम् आपध २,
१७, १७; हिध २, ५, ४५.
भासन-पाद्या (य-आ) चमन-
-नानि वैध १, ४, १; ३, ९, ४.
भासन-प्रदान- -नेन विध ९२,
२६.
भासन-शयन- -नानि वैध ३,
२, ३; -नाभ्याम् जैगृ १, १६ : ४.
भासन-शयन-वाक्-पथि- -थिपु
गौध १२, ५.
भासन-स्थान-संवेशन- -नानि
द्रागृ १, १, १३.
भासना(न-आ)द्य(दि-अ)र्ध-पर्य-
न्त- -न्तम् कप्र २, ८, ७.
भासना(न-आ)र्ह- -हंस्य विध
५, ९२.
भासना (न-आ) वृत्- -वृता
जैश्रौका ९२; ९७; ११४; १३५.
भासनीय- -यम् कौस् ३, ८;
१३७, ४०.
भासनो (न-उ) दक्- -के विध
६७, ४५; गौध ५, ३२.
भासनो (न-उ) पस्थान- -ने
काश्रौ ४, १५, २९; -नेषु पागृ ३,
४, ९.
२भासन-> षनो(न-उ) पायि-
चोदनⁱ- -नात् मीस् ८, २,
२८; -नेन मीस् १०, ६, ६०^j.
भासना- पा ३, ३, १०७.
भासयित्वा वैगृ २, ५ : ५××; वैध

३, ८, २.
भासां√कृ, भासांचक्रे बौश्रौ १८,
१३ : १०; निस् ४, १२ : ९;
पा ३, १, ३७; भासांचक्रिरे बौश्रौ
१७, १९ : ७; १८, ४६ : ५.
भासित,ता- पा ३, ४, ७२; -०त्ते
द्राश्रौ १०, ३, ४^k; लाश्रौ ३,
११, ३.
भासित्वा आश्रौ २, ७, २; शाश्रौ.
भासिष्यमाण- -णः भागृ २, २७ :
१७.
भासीन,ना- पा ७, २, ८३; -नः
आश्रौ २, १७, ३××; शाश्रौ; या
६, ६†; -नम् आपश्रौ २,
१६, ५××; काठश्रौ; -नस्य
शाश्रौ १५, १९, १†; वाश्रौ; -ना
शाश्रौ १, ३, ७, ३; हिश्रौ; -नाः
शाश्रौ १०, २१, ६; आपश्रौ; या
७, २६; ८, ७; -नान् बौश्रौ
१६, ८ : १०; वैगृ २, १ : ७;
-नानाम् निस् ९, ९ : २६; -नाम्
आपश्रौ २, ५, २; भाश्रौ; आगृगृ
३, १, १ : १०†^m; -नाय बौश्रौ
१०, २ : ५××; वैश्रौ; -नायाः
आगृ १, ७, ३; कौगृ; -नासु विध
५०, १७; -ने आपश्रौ ११, २१,
१; आपध १, ६, २७; वैध १, २,
३; हिध १, २, ५०; -नेन कप्र १,
१, १०; -नेभ्यः आपश्रौ १३, ६,
१५; ७, १; भाश्रौ; -नैः बृदे
३, ३.
भासीन-न्याय- -यम् शाश्रौ १,
१, १५.

a) कोप-पीडा-संस्मरणादिषु निपातः । व्यु. ? । b) पाठः ? । तु. वैप १, ९५७ f । c) सपा.
शौ १४, २, ९ विशिष्टः पाभे. । d) पाभे. पृ ६९ b द्र. । e) सकारस्य दकारः (पा ८, ४, ५३) ।
f) षीद इति पाठः ? यनि. शोधः (तु. C.) । g) भाप., नाप. वैप १ द्र. । h) तु. संस्कृतुः टि. Bühler च ।
i) द्रस. > षस. । पूप. उपासीरन् उपेयुः इति द्वे क्रिये संकेतिते वेदितव्ये । j) णोपेयि^o इति कांस. । । k) विप.
(भूमि-दुन्दुभि- [तु. धन्वी]) । l) भासते इति धन्वी (पक्षे) । m) पाभे. वैप १, ७२७ m द्र. ।

आ(आ/अ)स्, आस्यते^a वाश्री १, ३, ७, १६^b; आस्यति^a वाश्री ३, ४, ४, ८; आस्यस्व^c आश्री १, ४, ११; शाश्री १, ६, १६; बौश्री १, १६ : १; माश्री २, १६, २; १२, ३, ७; हिश्री २, २, २८; छ, ४, ३५; ७, ४, १८.

आस्^d - आसः आश्री ३, १३, १४.

†आस्-पात्र^d - त्रम् आश्री १, ३, ६; शाश्री १, ४, २१.

†शआस्^d - सात् शाश्री १२, ३, ९; अप छ८, ७३; निघ २, १६.

२ आस्^e - > †आस-पुट^e - टैः आपश्री १८, ५, १६; बौश्री ११, ११ : १९; वैश्री १७, १५ : ४; हिश्री १३, २, १०.

आ-सं/सृज् > आसं-सर्गिन् - गीं माश्री ५, २, ९, ७.

आ-सं-स्/कृ, आसंस्करसे शाश्री १०, १५, ६^f.

आसंगत्य- असंगति- द्र.

आसं/गृभ्, †आ(संग्रभाय) आश्री ५, १२, ९; ६, ४, १०; शाश्री ७, १५, ३; ९, १२, १; ऋअ २, ८, ८१; ३, २८; साअ १, १६७.

आ/सच्, आसचति माश्री १, ७, ७, १०; आ...सचत् > ता या ९, २६^g†.

आ/सज्, झ्, आसजते काश्री २४, ७, २; बौश्री; आसजति काश्री ५, १०, १८××; आपश्री; आस-जामि अप्रा २, १, २^h; आसजन्तु अप्रा २, १, २^h; आसजेत् द्राश्री

१३, ३, ९; लाश्री ५, ३, १२; वाग् १०, १३.

आसञयति शाश्री १७, ४, २; ३; बौश्री ११, २ : २६; १२, ७ : १५; १६, २० : १२; १८, १८ : ४; वैश्री १७, ८ : ६; आसञयन्ति बौश्री १८, २० : ८; आसञयेत् बौश्री २६, ६ : ४. आ-सक्त, क्ता - क्तः वृदे ३, ९५; या ९, २०; -क्तम् आपश्री १९, २६, ५; ८; ११; -क्ताः बौश्री ११, २ : २९; -क्तयाम् द्राश्री १३, ४, ७; लाश्री ५, ४, १४.

†आ-सक्ति- क्तः आपमं १, ६, ८; अप्रा ३, ४, १.

आ-सङ्ग^d - ङ्गः शाश्री १६, ११, १७; ऋअ २, ८, १; -ङ्गम् वृदे ६, ४१.

आ-सङ्गय^h - ङ्गयम् आमिगृ १, ३, ३ : १७; २, ६, ६ : २०.

आ-सज्य काश्री ५, १०, १८××; बौश्री.

आ-सञ्जन- ने बौश्री २२, १३ : २०. आसञ्जन-वत् - वती काश्री ७, ३, १७.

आ/सज्ज्, आसजति वैश्री १८, ६ : ३.

आ/सद्, †आ(सदतु) शाश्री ६, १०, ५; चाअ छ१ : १६; †आ...सदन्तु या ८, १३ⁱ†; †आ(सदन्तु) काश्री २, ८, ११; शुअ १, १०६.

आसीदति काश्री १०, ६, २३; बौश्री १२, १४ : १८; हिश्री;

†आसीदन्ति आपमं १, ६, १०; काग् २५, ५; आसीदतु या ७, २०; †आ...सीदतु आमिगृ ३, ८, २ : ५६; बौपि १, १५ : ६१; †आसीदताम् हिश्री १, ८, २९; हिपि १७ : १६; आसीदन्तु या ८, १३; आ...सीदन्तु या ९, ३७†; †आ(सीदन्तु) शाश्री ५, १३, ८; १२, २, १४; माश्री २, २, २, २६; वृदे ५, २६; आसीद-स्व माश्री १, ७, ३, ४२†; †आसीद् आश्री ३, १०, ६××; काश्री; आपश्री २, ११, ६†; १०, २७, १०^k; १८, १८, ७^l; बौश्री ६^k, १५ : २१; १७ : १४; ३१ : १०; १२, १४ : १९^m; माश्री^k १०, १९, ४; २२, २; माश्री^k २, १, ४, २१; २, ४, ३५; वाश्री^l ३, २, ७, ३०; ३, ३, १५ⁿ; वैश्री ५, ९, ५†; १२, १९ : २०^k; हिश्री १, २, ५५^k; ७^k, ३, १; ५२; ८, ३३; १३, ६, २०^o; †आ...सीद् आश्री २, १९, २२; ५, २०, ६; आमिगृ २, ५, १ : २९; वाग् ५, २२; हिपि १७ : १८; आसीदत् बौश्री ६, १५ : २२; आसीदेत् आपश्री १०, ३१, ६; हिश्री.

आसदोऽस्मि^m आश्री ५, ९, २१†; आ(आ-अ)सदः बौश्री १०, ४ : ७ⁿ; आ...असदः कौसू ८५, २५†; †आसदम् हिश्री ११, ६, ६१; द्राश्री १०, ४, १३^o; लाश्री ३, १२, १३^o;

a) धा. क्षेपणे वृत्तिः । b) पामे. वैप १, ७२७ p द्र. । c) धा. धारणे वृत्तिः । d) वैप १ द्र. ।

e) वैप २, ३खं. द्र. । f) पामे. वैप १, परि. आ/कृ > आ...कः मै १, ९, १; ४ टि. द्र. । g) पामे. वैप १, ७२८ n द्र. । h) = वस्त्र-विशेष- । गस. उप. ण्यत् प्र. । i) पामे. वैप १, ७२९ b द्र. । j) पामे. वैप १, ७२९ h द्र. । k) पामे. वैप १, ७२९ i द्र. । l) पामे. वैप १, ७०९ m द्र. । m) आसदत् (ऋ ३, १३, १)

इत्यत्र टैः प्रणवादेशः (पा ८, २, ८९) । n) पामे. वैप १, ७३० g द्र. ।

आ...असादीत् बौश्री ९, ७ :
४^{१०}.
आसादयते वाध २९, १५;
आसादयति काश्री ५, ५, ४××;
आपश्री; बौश्री १३, ३३ : १४^{१०};
वैश्री १७, ८ : ११^०; आसादयतः
बौश्री ५, ६ : १६; भाश्री
८, ६, १२; आसादयन्ति बौश्री
५, ४ : ४××; वैश्री; †आसाद-
यामि आपश्री ४, ७, १; भाश्री
४, ९, ४; हिश्री ६, २, १६;
†आसादय, >या काश्री २, ६,
२६; आपश्री; आसादयतम्
बौश्री ५, ५ : ३१; आसादयेत्
आश्री २, ६, १०; आपश्री २,
११, ५; ६; ५, २४, ८^२; बौश्री;
आसादयेयुः आश्री ६, १०, २०.
आसाद्यते आमिगु ३, ५, १ : २४;
वौपि १, १ : १८.
आ-सदन- -नात् वाश्री १, ३, २, ८;
या २, १५; ६, १.
†आ-सदम् आपश्री १६, २०, १४;
बौश्री ६, ३१ : ८.
†आ-सदे^d बौश्री १, २ : ७; वैश्री
३, ४ : १; या ७, २०^०.
†आ-सद्य बौश्री १, १९ : ३८; १०,
१८ : ७.
आ-सन्न- -न्नः द्राश्री ६, २, ४; १४,
४, ६; लाश्री २, १०, ४; ५, ८, ६;
या ६, ९; -न्नम् शाश्री ४, ८,
२××; आपश्री; हिश्री ११,
१, ३८^०; -न्नस्य या ३, २०;
-न्नाः भाश्री ४, २०, २;
-न्नानाम् अश्री ९, ६ (२)†;

-न्नानि शाश्री ४, ८, ३; आपश्री;
-न्नाय वाधूश्री ४, ५३ : ३; ४;
७; -न्ने शाश्री ५, ७, ५; बौश्री
५, ६ : २; -न्नेषु आश्री १, १,
४; शाश्री ३, १३, १५; काश्री
२५, १०, २०; आपश्री ४, २, ७;
बौश्री २०, १ : ४२; वाधूश्री २,
११ : १२; १५; वाश्री १, १,
६, २; हिश्री ६, १, २३.
आसन्न-कर्मन्- -र्मणि अप्राय
३, २.
आसन्न-काल- -ले पा ३, २,
११७.
आसन्न-भय- -ये बौगु ४, ३, ९.
आसन्ना(न-आ)रुढ- -डयोः पा
५, २, ३४.
आ-साद^d- -दः अश्री १५, ३†;
-दम् शाश्री ६, १२, १४; वैताश्री
१, २०; -दे वैताश्री १५, १७;
१६, ७; कौसू २३, ५; २४, १५.
आ-सादन- -नम् काश्री १०, ९, २९;
१२, ६, २४; १५, ९, ३; १८, ४,
२२; आपश्री; -नात् काश्री १९,
२, ४^१; २५, ७, ७; काठश्री १२५;
बौश्री ३, २४ : ८; २९, ३ : ७;
भाश्री ८, १६, १८; -ने बौश्री
२०, ९ : ९; १२ : १; १३ :
३६××.
आसादन-प्रोक्षण- -णे काश्री
२६, ६, २७.
आसादन-भक्षण- -णम् वाश्री
३, २, २, १९.
आसादना(न-आ)दि- -दि काश्री
२५, ७, ८.

आसादनो(न-उ)पवेशना(न-अ)
भिमन्त्रण- -णानि आपश्री १९,
९, १२; हिश्री २३, १, ४९.
आ-सादयत्- -यन् वैश्री १७, ८ :
१०; -यन्तौ माश्री १, ७, ४, ९;
वाश्री १, ७, २, २५.
आ-सादित- -तेषु वैताश्री २, १०.
आ-साद्य आश्री २, ३, १०××;
काश्री.
आ-साद्य- -द्याः अप २३, ७, २.
आ-साद्यमान, ना- -नः अप्राय ३,
१^२†; -नम् आपश्री ४, ५, ५;
७, १; भाश्री ४, ८, १; हिश्री
६, २, ९; वैताश्री १०, ७; -नाः
आपश्री ४, ५, ५; भाश्री ४, ७, ३;
वैश्री ५, २ : ८; ३ : १७; हिश्री
६, २, ७; -ने आपश्री ४, ६, ५;
हिश्री ६, २, १८.
आ-सीदत्- -दन्तम् बौश्री १२,
१४ : १९.
?आसदेत्^d शाश्री १, १७, १९.
?आसदेतत्^d आश्री २, १४, ३१.
†आसन्^d- -सन् आपश्री ३, २०,
२××; १६, २१, १४; बौश्री ३,
२५ : ८××; १०, ३६ : १९;
३८ : २७; ४० : २४; ४३ :
६; ४६ : ५२; १७, १७ :
११; १९, ४ : १५; भाश्री
३, १८, २^१; माश्री; वाश्री
१, १, ५, १९^१; वैश्री ७,
१ : ८; १८, १७ : ४; १९,
१ : १; हिश्री २, ८, ३२; ११,
७, १४; वैताश्री ३, १४^१; कौसू
६६, १^१; बौध २, १०,

a) पामे. वैप १, ७३०k द्र. b) ष्यति इति पाठः ? यनि. शोचः । c) सप्र. आपश्री १८, २, १
गृह्णाति इति, हिश्री १३, १, १३ प्रयुनक्ति इति च पामे. । d) वैप १ द्र. । e) पामे. पृ ५२१d द्र. ।
f) पाठः ? । आज्यासा^० इति बौसं. web., विद्याधरख । g) पामे. वैप १, ७३१ b द्र. । h) सपा. परस्परं पामे. ।
पाठः ? आसद्, एतत् इति C. शोचः इति । i) पामे. वैप १, ७३१j द्र. ।

५१^a; अत्र १९, ६०^b; -सनि
अशां १५, ५^b; अर्प २ : ५७^b;
या २, २८^c; अप्रा ३, ४, १^b;
-सभिः आपश्रौ १४, २९, ३;
हिश्रौ १५, ७, १६; या ७, ७;
-ञः या ५, २१; -ञा आश्रौ
४, ७, ४; शाश्रौ ५, १०, २३.
†आसन्नि(न-इ)षु^d -पून् या १४,
२५^e.
आसन्य, न्या^d - न्यः बौश्रौ २६,
७ : १२; वाधुश्रौ ४, ७२ : ३;
-†न्यात् आश्रौ ४, १३, १;
आपश्रौ १२, ३, ९; बौश्रौ ७, १ :
३०; १४, ४ : १०; १२; २६,
७ : ११; माश्रौ २, ३, १, २;
वाधुश्रौ ४, ७२ : २; वैश्रौ १५,
३:९; हिश्रौ ८, १, ४२; -न्याम्
बौश्रौ ७, १ : २९; १४, ४ : १२.
आसन- , न्ना- प्रभृ. √आस् (उपवे-
शने) द्र.
आसन्दी^d - पाग ४, २, ८६; -न्दी
काश्रौ २१, ४, २९; आपश्रौ १०,
२९, ७××; बौश्रौ; -न्दीः
बौपि १, १७ : २९, हिपि १२ :
५; -न्दीम् शाश्रौ १७, २, ६; १४,
६; काश्रौ ७, ९, २४××; आपश्रौ;
वाश्रौ ३, ३, ३, १३^f; -न्या
काश्रौ २२, ६, १३××; बौश्रौ;
-न्याः माश्रौ ४, ४, १८; हिश्रौ
७, ३, ४६; -न्याम् काश्रौ ८, ९,
२२××; आपश्रौ; -न्सौ वाश्रौ
३, ३, ३, १४.

आसन्दी-देवता (क >) का^d - का
शुश्र २, ४०४.
आसन्दी-पाद- -दान् बौश्रौ १०,
१७ : ६; -दे बौश्रौ १८, ४५ :
६; -दौ बौश्रौ ६, १७ : १७.
आसन्दी-वत्- पा ४, २, ८६; ८,
२, १२; -वति शाश्रौ १६, ९,
१†.
आसन्दी-विवान¹ - नम् काश्रौ २२,
६, १२.
आसन्दी-हस्त- -स्तेन अप १,
२८, ४.
आसन्द्य(न्दी-अ)ङ्ग- ङ्गानि लाश्रौ
८, ८, १०.
आसन्द्य(न्दी-अ)भिमर्शना (न-आ)-
दि- दि काश्रौ १५, ८, १४.
आसन्द्यौ (न्दी-औ) दुम्बरी- -यौ
काश्रौ १०, ८, १३.
आ-सं√धा, आसंदधीत अप १ : ३९¹.
आ-सन्न- प्रभृ. आ√सद् द्र.
?आसत्त- -सात्^k निस् ९, ८ : २७.
आ-सत्तम- -मम् बौध १, ११,
२१.
आ-सम्-अव√रुध् , आ...समव-
रुध्यन्ते वाधुश्रौ ४, ९६ : २६.
?आसमाप्यति वाश्रौ ३, ४, १, ४३.
आसार्गिक- असर्ग- द्र.
आसयित्वा √आस् (उपवशने) द्र.
?आसवः¹ अप १, ७, ७.
आ-सवित्- आ√स(प्रैरणे) द्र.
आ-सख्वस्- आ√सद् द्र.
आ-सख्य^m -> ष्य-प्रभृति- -तयः

कप्र २, ४, १-५^d.
आ-सखण- -आ√सद् द्र.
आ-साद्- प्रभृ. आ√सद् द्र.
आ-सामन्^b - मानम् निस् ५, ९ :
२४.
आ-साव्य- आ√सु(अभिषेवे) द्र.
आ-सिक- प्रभृ. आ√सिन् द्र.
आ√सिच्, ङ्च् , आसिन्वति काश्रौ
५, ६, ११; ६, २, १७××; आपश्रौ;
शांश्र १, २८, ८^o; †आसिञ्चन्ति
द्राश्रौ २, २, ३५; लाश्रौ १, ६,
३१; †आ(सिञ्च)शाश्रौ १८, १३,
५; ऋश्र २, १, ३०; साश्र १,
२१४; †आसिञ्चतु आपमं १,
१२, १; बौश्र १, ७, ३७; माश्र २,
१८, २; हिश्र १, २५, १; जैश्र १,
२२ : २७; आसिञ्चस्व या ४,
८†; आ...सिञ्चस्व माश्रौ ४, ३,
१५†; आसिञ्च कौसू ६४, १२†;
†आ...सिञ्च आश्रौ ४, ७, ४;
शाश्रौ ५, १०, १०; या ४, १९;
ऋप्रा ५, १७; †आ(सिञ्च) आश्रौ
७, ८, २; शाश्रौ १२, २५, ६;
साश्र १, ३८५; अश्र २०, ६४;
†आ...सिञ्चत, > ता आश्रौ
४, ७, ४; शाश्रौ ५, १०, ११;
या ५, १; †आ(सिञ्चत) शुश्र
३, १४२; साश्र २, ८३०;
आसिञ्चत् बौश्रौ २०, १६ : ३०;
३१; वाश्र १६, ५; गोश्र ३, ९, ७;
जैश्र १, २ : २०; द्राश्र २, २, २३;
कप्र १, ४, ५; ३, ९, १५

a) पाभे. वैप १, ७३१j द्र. । b) पाभे. वैप १, ७३१i द्र. । c) पाभे. वैप १, ७३१k द्र. ।
d) वैप १ द्र. । e) पाभे. वैप १, ७३१l द्र. । f) = (आसन्यात्^o [तै ३, १, ७, १] इति मन्त्रेण दीपमाना-) आहुति-
विशेष- । g) तु. टि. ?तणाधीवासम् । h) विप. । बस. । i) षस. उप. < वि√वे । j) षति इति
पाठः ? यनि. शोषः । k) पाठः ? आ, ससमाव इति शोषः प्रतीयत । l) पाठः ? जानु- > ऋवः इति
संस्कृतरभिमतः । m) आ-शस्य- इत्यनेन स-न्यायता द्र. । n) आशस्य^o इति जीसं., अस्मृ [९, १४, १], मूको. च ।
o) सपा. कौश्र १, २१, ७ सिञ्चति इति पाभे. ।

आ...सिञ्चत् वाधूश्री ३,३४ :
 ११; आसिञ्चयुः गौध २३, १.
 आसेचयते आश्री १,८,२; आसे-
 चयेत् आश्र २, ८, १५; ९, ५;
 कौसू ६८, ५; १३६, ८; विध
 ५,२४.
 आ-सिक्त- -क्तयोः आश्री ४,७,४;
 -क्ते वैताश्री ४,१७; १७,९.
 आसिक्त-सर्पिष्क^१- -ष्कम्
 वाधूश्री ३,७० : २.
 आ-सिच्^२- -सिचम् बौश्री १८,
 २९ : ६^३फ.
 आ-सिच्य काश्री ४, ८, ३×४;
 काठश्री.
 आ-सिच्यमान,ना- -नम् माश्री १,
 ४, ३, ७; वैताश्री २२, १६;
 -नयोः शांश्री ५, १०, ११;
 -नाम् वैताश्री ३०, १३; -ने
 आश्री ४, ७, ४; काश्री; -नेषु
 द्राश्री १३, ४, ७; लाश्री ५,४,
 १४.
 आ-सिञ्चत्- -ञ्चन्तम् कौसू ६४,१२.
 आ-सेक- -कम् काश्रीसं ३३ : ५;
 वाश्री १,१,१,५३.
 आ-सेचन- -नम् काश्री ४, ८, ३;
 पाश्र १,१४,३; वैश्र १, ५ : ३;
 -ने काश्री ५, ६, ११; माश्र ३,
 १७ : ११.
 आसेचन-प्रभृति^४- -तीन् बौश्री
 २०, ४ : २८.
 आसेचन-वत्- -वत् हिश्री ७,
 ६, ३४; वैश्री १४, ९ : ८;
 -वन्तम् काश्री २६, १, १७;

-वन्ति काश्री २६, ७, ३२;
 आपश्री १५,१४,१३; भाश्री.
 आसेचनवती- -तीम्
 आपश्री १७,१७,८.
 आसेचनवद्-उपरिभाग^५-
 -गान् वैश्री १३,३:१३.
 आसेचना(न-अ)धिक^६- -कः मीसू
 ४,२,२८.
 आ-सेचम् काश्री ९,४,१४.
 आसित-, षित्वा ✓आसू
 (उपवेशने) द्र. ।
 आसिनासायन-, आसिनासि-
 ?असिनास- द्र.
 आसिबन्धकायन-, षन्धकि- असि-
 बन्धक- द्र.
 आसिमन्- आसु- द्र.
 आसिष्यमाण- ✓आम् (उपवेशने)
 द्र.
 आसिहात्य- असि- द्र.
 ?आसी जेश्रीका ९१.
 आ-सीदत्- आ/सद् द्र.
 आसीन- ✓आस् (उपवेशने) द्र.
 आ-सीमान्त- -न्तम् वाध ११,१५.
 आ/सु (अभिषेवे), षआसोत् >ता^७
 साम् १,५८०^२; ऋप्रा ७,३२.
 षआसुषवुः, षआ...असुषवुः
 आपश्री १३, १, ११; हिश्री ९,
 १,१०.
 आ-साय्य- पा ३,१,१२६.
 आ-सुत्^८-(>सुतीय- पा.) पाग
 ४,२,१३८.
 १आ-सुत- -तः वैताश्री २४, १;
 -तम् बौश्री २६,२२ : २१^९.

आ-सुति- (आसुति-मत्- पा.) पाग
 ४,२,८६; -तेः अश्र ३,७फ.
 आसु(ति>)श्री-वल- पा ५,२,
 ११२.
 षआ-स्वान- -नः निसू ९, ३ :
 २९^१.
 आसु-(>आसिमन्-) आशु- टि. द्र.
 आसुर- १असुर- द्र.
 आसुरायण-, आसुरि- २असुर- द्र.
 आसुरी- १असुर- द्र.
 आसुरीय- २असुर- द्र.
 षआ/सू(प्रेरणे), आसुवै^{१०} शांश्री १६,
 १,१९; आसुवस्व काश्री २३,
 ३, १^२फ; आपश्री २२, १९,
 १^१; आसुव, > वा आश्री
 ४, १०, १; शांश्री ५, १४, ८;
 आपश्री ६, २३, १; २१, १२,
 ३; हिश्री १६, ४, ३५; कौसू
 ५८, १.
 आ-सवित्- -ता आश्री १०, ६, ८;
 शांश्री १६, १, १९; -त्रे शांश्री
 १५, १४, ४; ७; १६, १, १७;
 काश्री २०, २, ६फ; आपश्री २०,
 ६, ६; बौश्री १५, ९ : ४; १५;
 १० : ४; १६; ११ : १५; १२ :
 ४; वाश्री ३, ४, १, ३४; हिश्री
 १४, २, ८; भाशि १२०फ.
 ?आसुवम्^{११} शांश्री ८, १८, १फ.
 आ/सु, आससार शांश्री १५, २४,
 १.
 आ-सस्वस- -वांसः या १०, ३.
 षआ-सञ्माण- -णासः वृदे ५, १०७;
 या १०, ३फ.

a) विप. । बस. । b) वैप १ द्र. । c) मपु३ त>तप् इति । d) षत्- इति क्वाचित्कः पाभे. ।
 e) पाठः ? आ^{१२} इति शोचः (तु. वैप २, ३खं.) । f) पाभे. वैप १, ७३४b द्र. । g) = आसुवाते । लेटि प्रपु १
 त-कार-लोपः (पा ७, १, ४१) । सपा. माश्र १३, ४, २, ९ काश्र १५, ४, २, ३ आसुवात् इति पाभे. । h) पाभे. वैप
 २, ३खं. आसुवस्व तां २१, १०, १९ टि. द्र. । i) सपा. हिश्री १७, ७, १८ अनुसुवस्व इति पाभे. । j) पाठः ई
 शोचः वैप१ परि. ?आसुवम् टि. द्र. ।

भा-सूत- -तेषु द्राश्रौ १५, ४, १०;
लाश्रौ ५, १२, १६.
†भा/सूज्, भासृज काश्रौ १०, ४, ८;
वैताश्रौ ३०, ९^६; भा...सृजत>
ता या १, १०^६; ऋप्रा ७, ५३.
भा (सृजयते) ऋश्र २, ९, ७१.
आ-सेक- , आ-सेचन- प्रमृ. आ
✓सिच द्र.
भा/सेव्, भासेवते आपध १, १८,
११; हिघ १, ५, ८०; भासेव-
ध्वम् या ९, २६.
भा-सेवा- -वायाम् पा २, ३, ४०.
भा-सेवित- (> °तिन्- पा.)
पाग ५, २, ८८.
भा/स्कन्द्, भास्कन्देत् आपश्रौ ९,
२०, ३; वैश्रौ २०, ३९ : ५.
†भा...अस्कान् आपश्रौ १२, ७,
११; बौश्रौ.
भा-स्कन्द^०- -न्दः द्राश्रौ ११, ४,
५; लाश्रौ ४, ४, ५; -न्दम् लाश्रौ
६, ६, १९.
भा-स्कन्न- -न्नम् या ६, १७.
†आस्क^०- -स्काः आश्रौ ३, ७, १०;
शाश्रौ ८, २१, १; ऋत ४,
७, २.
आस्कभ^०- -स्कभः ऋत ४, ७, २.
१आस्तरण- ?अस्तरण- द्र.
२आस्तरण- ?अस्तरण- टि.द्र.
आस्तायन- ?अस्ति- द्र.
आस्तिक- , क्य- ✓अम्(भुवि) द्र.
आस्तिकालयन- अस्तिकबल- द्र.
आ-स्तीर्ण- , र्य आ/स्तृ द्र.
आ/स्तु>आ-स्ताव^०- -†वः आपश्रौ
१२, १९, ७; बौश्रौ ७, १० : २;

वैश्रौ १५, २३ : ३; हिश्रौ ८,
५, २६; जैश्रौ १३ : १८^०; -वम्
शाश्रौ ६, १२, ७; १६, ३, १८;
१२, १७; काश्रौ २०, ५, ७;
बौश्रौ ६, २९ : १७; ३० : २;
माश्रौ २, २, ४, ८; ३, ६, ५; वाश्रौ
३, ४, ३, २; ७; जैश्रौ १३ : ८;
१९; द्राश्रौ २, ४, २०; १५, २,
२०; लाश्रौ १, ८, १४; ५, १०,
२०; ९, ९, २०; -वाः माश्रौ
२, ३, ७, ६[†]; -वात् माश्रौ २,
३, ६, १; -वाय माश्रौ २, २,
४, ६; -वे आपश्रौ १३, १७, ९;
बौश्रौ ७, ८ : ६; १६, ४ : ८;
२५, ३१ : १५; वैश्रौ १६, २२ :
३; जैश्रौका १७५; द्राश्रौ ९, १,
१६; २, ६; लाश्रौ ३, ५, १५;
६, ६; ९, २, १०; ९, २२.
आस्ताव-चात्वाल-शामिन्न- -त्रान्
द्राश्रौ ४, २, ३; लाश्रौ २, २, १२.
आ/स्तुभ्, आस्तोभति शाश्रौ १८,
१५, ५[†].
आ/स्तृ,स्तृ (आच्छादने), आस्तृ-
णाति काश्रौ २, ४, ३××; आपश्रौ;
†आस्तृणामि आपश्रौ १२, २,
१५; माश्रौ २, २, ३, ३९.
आस्तारयति कौस् ८३, २५;
आस्तारयेत् गोगृ ३, ९, १२; ४,
२, २३.
३आ-स्तरण^०- पाग ४, १, ४१; ५, १,
९७; -णम् भाश्रौ १, २३, १;
द्राश्रौ १०, ४, ८[†]; लाश्रौ ३,
१२, ७[†]; कागृ ६०, ६; वैगृ ५,
१३ : १४; कौस् ६४, २६; अश्र

१५, ३[†]; -णात् माश्रौ १, २,
२, २५; बौश्रौ २०, ६ : २६;
वैश्रौ ५, २ : ९; हिश्रौ ७, ४,
५७; -णानि गोगृ ३, ९, १३;
-णे बौश्रौ २०, ६ : २५; द्रागृ
३, ३, २०.
आस्तरणी- पा ४, १, ४१.
४आस्तरण- पा ५, १, ९७.
आस्तरण-हस्त^०- -स्तेन अप १,
२८, ४.
आस्तरणो(ण-उ)पधान- -नम्
हिघ २, २, १६[॥].
भा-स्ता(र>)रा^१- -रा उनिस् १ :
४४.
आस्तार-पङ्क्ति^१- -ङ्क्तिः निस्
१, ३ : ५; ऋश्र १, ८, ७; २, ८,
१०; शुश्र १, २, २५; २७२; २,
१६; ५, ५७; अश्र १, १८; ३,
१९; ५, ८; १३; ६, ९८; १४०;
८, २; ५; ८; ९; ९, ३; ४; १०,
१३; ११, १०; १२, १; २; १३,
२^३; १४, १; २; १८, ४; १९,
३१; ३३; ३७; ४८; ५५; ऋप्रा
१६, ५९; पि ३, ४०; -ङ्क्ती अश्र
७, ८१; १८, ४; उनिस् ५ : ४.
आस्तारपाङ्क्त^१- -ङ्क्तम्
ऋश्र २, १०, २१; २४.
आस्तारपङ्क्तय(क्ति-अ)-
न्त^०- -न्तम् ऋश्र २, १०, १७०.
आ-स्तोर्ण- -र्णः लाश्रौ ८, ६, ९;
-र्णम् काश्रौ १३, ३, १६; गोगृ
२, ३, ३; -र्णयोः काश्रौ १६, ३,
४; -र्णस्य हिश्रौ १०, २, ५;
-र्णात् जैगृ १, ४ : १६; -र्णेषु

a) पांमे. वैप १, ६५७ g द्र. । b) भाप.> नाप. (विधि-विशेष-). । c) वैप १ द्र. । d) अर्थः
व्यु. च? । e) पांमे. वैप १, ७३५ l, परि. च द्र. । f) भाप., नाप. । उप. भावकर्मणोर् ल्युट् प्र. । g) विप. ।
बस. । h) सपा. आस्तरणोपधानम् <> उपस्तरणम्, उपधानम् इति पांमे. । i) = छन्दो-विशेष- । गस. उप.
अधिकरणे षष् प्र. उंसं. (पा ३, ३, ३४) । j) = छन्दो-विशेष- । कस. । k) विप. (सूक्त-). । तस्येदमीयः अण् प्र. ।

वैगृ ३, ३ : ५; -णौ निस् १, ३ : ६.
 आस्तीर्णा (र्ण-अ) भिचारि-
 (त >) ता- -ताः काश्रौसं
 २६ : १.
 आ-स्तीर्य काश्रौ ८, ७, १६ × × ;
 आपश्रौ.
 आ-स्त्य बौश्रौ २३, १८ : ७.
आस्तेय- √अम् (भुवि) द्र.
आस्त्रायण- २अस्त्र- द्र.
१आस्थरूपोहणात्^१ काश्रौसं २८ : ३.
आ√स्था^२, आतिष्ठते आपश्रौ १०,
 १, ५; भाश्रौ १०, २, ४; हिश्रौ
 ७, १, १३; हिगृ १, १२, २;
 आतिष्ठति शाश्रौ १७, १५, ३;
 बौश्रौ ११, ७ : २७; १२, १२ :
 ९ × ×; हिश्रौ; ऋआतिष्ठ काश्रौ
 १२, ५, २; आपश्रौ; आपमं १,
 ५, १; ६; ११; २, २, २; कौगृ १,
 ८, २०°; शांगृ १, १३, १२°;
 आमिगृ १, १, २ : २४; ५, ३ :
 १६; ६, २ : १३; आपगृ ५, २;
 १०, ९; कागृ २५, २८°; ४१,
 ८; बौगृ १, ४, २४; २, ५, १०;
 भागृ १, ८ : ११; १६ : ८; मागृ १,
 २२, १२°; वागृ १४, १५°; वैगृ २,
 ५ : १२; ३, ३ : ६; हिगृ १, ४, १;
 १९, ८; कौस् ५४, ८°; अष ४, ४,
 ६°; (आ) तिष्ठ > ष्टा हिश्रौ २३,
 ४, ३९ ऋ; आतिष्ठतम् मागृ १,
 १०, १६ ऋ°; आतिष्ठत् वैश्रौ १०,
 १४ : १८; आमिगृ ३, ७, ४ :
 २८; ३०; बौपि २, ४, १५; १९;
 शंघ ३९०; आतिष्ठताम् निस् २,

९ : ३; आतिष्ठेत् वध २, २२.
 आतस्थे वृदे ७, ४३; आतस्थौ
 बौश्रौ १८, ४४ : ५; आ...
 तस्थौ या ११, ५० ऋ; आतस्थुः
 शाश्रौ ८, २१, १ ऋ; आस्थित
 बौश्रौ २४, १२ : ७; आ-स्थात्^३
 आपश्रौ १, ४, १४; भाश्रौ १, ४,
 १३; वैश्रौ ३, ४ : १८; १२, ८ :
 १५; हिश्रौ १, ७, १७; ७, १, ५०;
 ऋआ...अस्थात् आश्रौ १२, ६, ९;
 आपश्रौ १६, ७, ४; बौश्रौ १, २ :
 २०; वैश्रौ १८, ५ : २; हिश्रौ ११, २,
 २; ऋआ(अस्थात्) आश्रौ ४, १३,
 ७; ऋअ २, ३, १४; ऋआ(अस्थुः)
 आश्रौ ७, ८, ३; शाश्रौ १०, ५, ४;
 १८, १८, १३; ऋअ २, ८, ९५;
 साअ १, ३४९.
 आस्थापयति आमिगृ १, १, २ :
 २३ × ×; आपगृ; आस्थापयामसि
 अप ३७, १९, ४; आस्थापयेयुः
 आश्रौ १०, ८, २.
ऋआ-तिष्ठत्- छन्तम् बौश्रौ १८,
 १७ : २४; छुअ ३, १८३; अअ
 ४, ८.
आ-स्था- पाग १, ४, ७४; ४, ४,
 ६२; -स्थायाम् ऋत ४, ६, ६.
आस्थ- पा ४, ४, ६२.
आस्था√कृ पा १, ४, ७४.
ऋआ-स्थात्- -ता गोश्रौ ३, ४, ३१;
 द्रागृ ३, १, २८; या ९, १२.
आ-स्थान- -नात् आपश्रौ १२, १६,
 ८; हिश्रौ ९, ५, ३७.
आ-स्थापन- -नम् आपगृ ५, ९.
आ-स्थापित- पाग ६, २, १४६;

-तम् अप ३७, १९, २; शीघ्र १,
 ४८; ४, १२५; -तानाम् ऋप्रा
 ४, १; -ते वैताश्रौ १३, १३.
आ-स्थाप्य आमिगृ १, ६, ३ : १;
 कौस् ५४, ८; ७६, १६; ७७, १९.
आ-स्थाय बौश्रौ १८, ४४ : ५;
 वाश्रौ.
आ-स्थित- -तः वैगृ ५, ५ : ७;
 विध १, २; ५१, ५९; वृदे
 ५, १४; -ऋतम् बौश्रौ ४,
 ६ : ५०; भाश्रौ ७, १४, ६;
 वाश्रौ १, ६, ५, १६; वैश्रौ १०,
 ४ : ९; हिश्रौ ४, १, ५९; कौस्
 ४४, २३; २८.
आस्थित-प्रतिषेध- -धः पावा २,
 ३, १२.
आस्थिक- अस्थि- द्र.
आ√स्ना> आ-स्नात- -तानि या
 ४, ६.
आस्पद्^४ - -दम् ऋत ४, ६, ६; पा ६,
 १, १४६.
आ√स्पृश> आ-स्पृष्ट- -ष्टम् आपश्रौ
 १२, २५, ९; माश्रौ १, ३, १, १४;
 वैश्रौ १५, ३२ : १४; हिश्रौ ८,
 १, ८७; ७, ५७.
आ√स्फुद्> आ-स्फोटन- -नम् विध
 ७१, ७१.
आस्माक- °कीन- १अस्मद्- द्र.
१आस्य^५ - -स्यम् काश्रौ २१, ४, १२;
 आपश्रौ; या १, ९४; -स्यात्
 आपध १, १६, १२; हिघ १, ५,
 ११; -स्ये काश्रौ ६, ३, २८;
 आपश्रौ; माश्रौ ५, २, १५, २० ऋ;
 ऋपागृ १, ३, २५; ३, १३, ६;

a) पाठः ? आ, स्वरू(र-उ)पोहनात् इति शोषः विमृश्यः । b) पावा १, ३, २२ परामृष्टः द्र. । c) पाभे.
 वैप १, ७३६ छ द्र. । d) पाभे. वैप १, ७३६ l द्र. । e) पाभे. वैप १, ७३७ ८ द्र. । f) अस्ना^६ इति R.N. ? ।
 g) व्यु. ? । < आ-पद्- इति संप्रदायः । h) वैप १ द्र. । i) पाभे. वैप १, ७३१ j द्र. । j) सपा. आस्ये <>
 आस्याम् इति पाभे. ।

या ८, २१; -^१स्येन आश्रौ १, १३, १; शाश्रौ.
 आस्य-तस्य (:) हिश्रौ १३, २, १०.
 आस्य-द्वन्- -मः आपश्रौ १०, १०, ५; -मम् आपश्रौ ७, ८, ३; १६, १३, ११; भाश्रौ ५, ७, १३; माश्रौ; -मः या १, ९; -ने आपश्रौ ५, १४, ८; १५, १३, ३; १७, ११, ४; ५; भाश्रौ ५, ८, २; ११, १३, ५; माश्रौ.
 आस्यद्वि- -मिम् आपश्रु १०, ११.
 आस्यद्वि(म-आ)दि^२ -दीन् वाश्रौ २, २, ३, ७.
 आस्य-देश- -शे माश्रौ २, ५, ४, ३२.
 आस्य-नासा(सा-अ)क्षि-कण- -णान् कप्र १, १, ५.
 आस्य-संमि (त >) ता- -ताम् आश्रौ १, ७, ६.
 रआ(स्य >)स्या^३ -स्याम्^४ आपमं २, २१, ३३; भाग २, २६ : १३; हिग १, १५, ६^५.
 आस्या(स्य-अ)न्त^६ -न्तम् वैश्रौ १०, ७ : ४.
 आस्या(स्य-अ)विकार- -रेण गौध २७, ११.
 आ/स्यन्द्, आस्यन्द्ते या १, ९; ^१आस्यन्द्ताम्^१ कौग ३, २, ५^६; शांय ३, २, ८; आस्यन्द्ते शाश्रौ १६, १८, १९.
 आ-स्यन्दन- > ^१न-वत्- -वन्तम्

या १०, १३.
 आस्यहात्य- , हैतिक- इदम्- द्र.
 आस्य- , आस्य-जात, ✓ आस्य २अस्य- द्र.
 आस्यायण- १अस्य- द्र.
 आस्यिन्- २अस्य- द्र.
 आ/स्यिष् > आस्येमन्- -माणम् पावा ६, १, ६५.
 आ/स्यु, आस्यवति आपश्रौ १९, ६, ५; हिश्रौ २३, १, १४.
 आस्यवयेत् वैग ५, ६ : ११.
 आ-स्यव- पा ३, १, १४१; -वान्^७ आपध २, ५, १९; हिध २, १, १०१.
 आस्यववत् गौध १, ४६.
 आ-स्यवयत्- -यन् वैश्रौ १५, १२ : ८; १४ : १२.
 आ-स्युत्- -तम् निसू ५, ३ : ४.
 आ/स्वद् > आ-स्वादन- -नेषु वीग २, १२, ४; वीपि २, १२, ४.
 आ/स्वन् > आ-स्वानित-, आ-स्वान्त- पा, पावा ७, २, २८.
 आस्यनीया वाश्रौ ३, २, ६, ४.
 ✓आह^८, आह आश्रौ १, १, २××; शाश्रौ; आपमं २, ११, १३^१; हिग २, १, ३^१; या १, १५; १९××; आहोश्ओश्^१ आश्रौ ८, ३, ३१; शाश्रौ १२, २४, ६; वैताश्रौ ३३, ३२; आहतुः अप्राय ३, ५; ८; वृदे २, ३७; १३२; ४, ६०; ६, १०७; ७, ६९; सास्य २, ६९७;

ऋप्रा १७, ६; ^१आहुः आश्रौ २, ९, ४××; कौग ३, १५, ५^१; या १, ८; १३; १४; २०××; ^१आस्य वीश्रौ १८, ४७ : १४^२; पा ८, २, ३५
 आ/हन्^३, ^१आहते शाश्रौ ४, १७, १२; काश्रौ २५, ९, १३; माश्रौ १, ८, ३, ३४; वाश्रौ १, ६, ५, ५; आहन्ति शाश्रौ १७, १४, ११; काश्रौ २, ४, १५; ७, ८, २५; १३, ३, २०^३××; वाश्रौ; पाशि ६; या २, १७; ६, ११; ^१आ...हन्ति^४ ऋप्रा २, ७५; उसू २, २१; आहन्ति शाश्रौ १७, ५, १०; १४, १०; वीश्रौ ११, ८ : १२××; वाधुश्रौ; या ३, ५; ९, २०; आहंसि या ५, २; आहन्तु सु ९, ३; आहत द्राश्रौ ११, २, १; लाश्रौ ४, १, ११; कौसू ४४, १७^५; आहन्त्यात् वीश्रौ २६, २३ : ३; माग २, १५, ६; अप १७, २, १०^६; नाशि २, ७, ९^६; आहन्त्युः द्राश्रौ ९, १, २; लाश्रौ ३, ५, २. आहन्त्यते आमिग ३, ८, १ : २१. आघातयते वाधुश्रौ ३, १०२ : ४. ^१आजहन्ति आपश्रौ २०, १६, १२; हिश्रौ १४, ३, ३७; या ९, २०^६.
 आ-घा(त > ट >)टा^७ -टाः अप्रा ३, ४, १^६.

- a) वैप १ द्र.। b) विप.। बस.। c) विप. (वाच्) तात्रभविकः यत् प्र.। d) पाभे. पृ ५७३ j द्र.। e) ^१स्या इति पाठः? यनि. शोषः (तु. आपमं. भाग., सकृच्च मनस्याम् इति च; वैतु. संस्कृता Bōht. [ZDMG ५२, ८४] च आस्यत् इति शोषः?)। f) पाभे. पृ ४८२ t द्र.। g) आस्यन्त्ताम् इति पाठः? यनि. शोषः (तु. शांय.)। h) = शब्दादि-विषय-। i) पावा ४, ४, १^१; परामृष्टः द्र.। j) सपा. पाग १, १५, ८ विशिष्टः पाभे.। k) = प्रतिगर-। l) पाठः? मातुः इति शोषः [तु. शांय ३, १३, ५]। m) पा १, ३, २८ परामृष्टः द्र.। n) आहरन्ति इति कांसं. पाठः? यनि. शोषः (तु. चौसं., सप्र. आपश्रौ २१, १८, ३ च)। o) वैप १, ५२७ j द्र.। p) हन्त्यात् इति लासं.।

आ-वा(टि>)टी^०- टी: बौश्रौ १६,
२० : ५; -टीभि: बौश्रौ १६,
२१ : ५; १३; २६, १७ : ११;
-ट्य: बौश्रौ २६, १७ : ११.

आ-घ्नत्- -घ्नन्तः हिपि १४ : ११;
कौसू ८१, २१.

आ-घ्नान- -ना: आश्रौ १०, ८,
८; काश्रौ ५, १०, १३××;
आपश्रौ.

आ-हृत्- -तम् याशि १, २९;
-तस्य कौसू १५, ४; -ता: अप
७०^२, २, २.

आहत-प्रशंसा- -सयो: पा ५,
२, १२०.

आ-हृत् द्राश्रौ १०, ३, ४; लाश्रौ ३,
११, ३.

आ-हनन^०- -नम् वाधूश्रौ ३, १०२:
३; अश्र १२, ५, (५)†; -नात्
या १, १; -नाभ्याम्^० आश्रौ ८,
३, १९; वैताश्रौ ३२, २५.

आहनन-प्रकार^d- -रान् आपश्रौ
१२, २, १५; हिश्रौ ७, ६, ३६.

आहनन-वत्- -वन्तः या ४,
१५.

आहनना(न अ)र्थ- -र्थम् आपश्रौ
२१, १८, ३; आमिष्ट ३, ८, १ :
४; बौपि १, १४ : ४.

†आ-हनस^०- -०नः अप ४८, ११५;
निघ ४, २; या ५, २४; अप्रा ३,
४, १; -नसः निघ ४, १; या
४, १५४; -नसम् अप्रा ३,
४, १; -ना: या ५, २.

आहन(स्य>)स्या^०- -स्या वृदे
१, ३७; ५५; -स्या: आश्रौ ८,

३, २८; शाश्रौ १२, २४, १;
वैताश्रौ ३२, ३१.

आ-हन्य- -न्यम् वाश्रौ ३, २, ३,
२५.

आ-हरण- प्रभृ. आ/हृ द्र.

आहरन्तिकी- अहन्->अहर्- द्र.

आ-हर्तवै प्रभृ. आ/हृ द्र.

आहल- पाउभो २, ३, ९९.

आ-हव- आ/हृ द्र.

आहस्पत्य- अहन्- द्र.

आ/हा(गतौ)>आ-हान, ना^०- -नम्
वाश्रौ १, ६, १, ७^६; -नाम् वाश्रौ
१, २, १, २.

आ-हार- प्रभृ. आ/हृ द्र.

आ-हाव- आ/हृ द्र.

आहिंसायन-, °हिंसि-, °सीय-,
अ-हिंस- द्र.

आहिकम्^० निघ ३, १२.

आहिर्बुध्य- २अहि- द्र.

आहिसकथ- १अहिसकथ- द्र.

आहीनिक- अहीन- द्र.

आ/हु (दानादनयोः), आहुहोति
अश्र ५, २४; †आहुहोमि^०
आपश्रौ १२, २३, ८^३; १३, ४,
२; बौश्रौ ७, १४ : १३; वैश्रौ
१५, ३० : ३; ४; हिश्रौ ८, ७,
२४^२; †आ(जुहुमः) आश्रौ ७,
१०, ५; अश्र २, ५, ७२; †आजु-
होत्, >ता आपश्रौ २१, २, ५;
बौश्रौ १, १५ : ५; माश्रौ २, ४,
१, २४^२; वाधूश्रौ ३, ५८ :
१०; वैश्रौ ६, १ : ६; हिश्रौ १६,
१, २५; २१, १, १७; क्षुसू ३,
१० : ९; साश्र १, ६३; ऋप्रा

७, १४; ८, १५; उनिस् ४ : ८;
†आ...जुहोतन बौश्रौ २, १४ :
१३; १०, १७ : ११.

आजुहाव वृदे ६, १०२.

आहुयते वाधूश्रौ ३, ४० :
८^१!

आ-जुह्वत्- -ह्वतः माश्रौ ३, ८, ६.

आ-ह्वन- -ने वैश्रौ ९, ५ : ११;
-नै: बौश्रौ १६, २० : १२.

आहवनीय^०- -†०य आपश्रौ

५, १५, ६; ६, २, १; हिश्रौ ३,

४, ३८; -यः आश्रौ २, २, १३;

शाश्रौ; -यम् आश्रौ १, १, २××;

शाश्रौ; -ययो: बौश्रौ ५, ८:३३;

-यस्य आश्रौ ३, ११, २०; शाश्रौ

२, ८, २२; -यात् आश्रौ १, १,

४; -याय भाश्रौ २, १३,

१; ५, २, १३; माश्रौ १, ५,

२, ९; ५, २, १२, २६; -ये

आश्रौ १, १२, ३३^२ × ×; शाश्रौ;

-येन शाश्रौ २, ८, २२†; आपश्रौ

७, १०, ९; बौश्रौ ४, ४ : ३०;

२०, २३ : १; वाधूश्रौ ३, १८ :

१३; वैश्रौ २०, ८ : ६; हिश्रौ

४, २, ५६; आमिष्ट ३, ५, ८ :

१०; बौपि १, ७ : ११; हिपि

७ : २; -यौ माश्रौ १, ७, ३,

४५; वैश्रौ ८, ९ : १०; ११ :

९; हिश्रौ ५, २, ३.

आहवनीय-कर्मन्- -र्मणि

आपश्रौ ८, १३, ९.

आहवनीय-गार्हपत्य- -त्यौ

काश्रौ ७, ३, ९; बौश्रौ १४, २९:

१; अप्राय १, ३; ५.

a) वैप १ द्र. । b) गस. उप. भावाद्यर्थे ल्युट् प्र. । c) =आहनन- साधन-दरड- । d) विप. ।

बस. । e) =ऋग्वि-विशेष- । मत्वर्थे यत् प्र. उत्सं. (पा ४, ४, १२८) । f) =आनत-, प्रहृ- । गस. उप. कर्मणि कः >

नः (पा ८, २, ४५) । g) सपा. आहानम् <> प्रहाणम् <> ओपनतम् <> उपनतः इति पाभे. । h) अन्वय. ।

व्यु. ? । आ, हि, कम् इति दे. संस्कृतः टि. । i) पाभे. वैप १, ७४१ i द्र. । j) आहु^० इति पाठः ? यनि. शोषः ।

आहवनीय-गार्हपत्य-दक्षिणा-
मि- मिषु वैताश्रौ १, १२;
-ग्नीन् काश्रौ ४, १२, १७.
आहवनीय-गृह-शाथिन्-
-यी काश्रौ २, १, १५.
आहवनीय-चिति- -ते:
आपश्रौ १६, २०, ९; हिश्रौ ११,
६, ५६.
आहवनीय-जागरण- -णे
काश्रौ २५, ३, ५.
आहवनीय-तस्र (:) आपश्रौ
३, ९, ३; माश्रौ १, ३, ५, ३;
वाश्रौ १, ३, ३, ६.
आहवनीय-दक्षिणामि- -मी
वैताश्रौ ६, २; -ग्न्योः वैताश्रौ ५,
१३.
आहवनीय-देश- -शान् काश्रौ
११, १, ६; -शे आपश्रौ ५,
२०, ९; वाश्रौ २, १, ४, ६; हिश्रौ
६, ५, १८.
आहवनीय-न्यन्त- -न्ते
आपश्रौ १८, ७, २; हिश्रौ १३,
२, ३१; -न्तेन लाश्रौ १०,
१५, ८.
आहवनीय-परिश्रित्^a- -श्रितः
काश्रौ १७, ३, ९.
आहवनीय-प्रधान^b- -नेषु
वाश्रौ १, १, १, ५४.
आहवनीयप्रधान-स्थान-
-नेषु वाश्रौ १, १, १, ५०.
आहवनीय-प्रभृति- -ति
बौश्रौ ७, ११ : १; ७; १४.
आहवनीय-बहिष्पवमानदेश-
-चाखाल-शामिश्रौ(त्र-श्रौ)हुम्बरी-
-ब्रह्मासन-सालाह्वार्य-प्राजहित-
-तान् काश्रौ ८, ६, २१.

आहवनीय-यजति^c- -तयः
काश्रौ १, ८, ३९.
आहवनीय-लक्षण^b- -णम्
वाश्रौ १, ४, ३, १९; -णे वाश्रौ
१, ४, १, २५.
आहवनीय-लक्ष्मी- -क्ष्म्यै
वाश्रौ १, ३, २, १.
आहवनीय-वत् काश्रौ ५, ८,
६; १६, २, २१; वैश्रौ १, ३ : ६.
आहवनीय-शेष- -यम् वाश्रौ
३, २, ४, १०.
आहवनीय-आपिन्- -पिणः
काश्रौ २, ७, २४.
आहवनीय-सकाश- -शात्
बौश्रौ १९, ६ : ११; २६, २७ :
३; -शे बौश्रौ २५, ११ : १५;
१४ : १९.
आहवनीय-समीप- -ये आश्रौ
२, ३, १५; काश्रौ २४, ५, ३५.
आहवनीय-संयोग- -गात्
मीसू ३, ४, २६.
आहवनीय-सहित- -तान्
काश्रौ १८, ४, २२.
? आहवनीयसोम- -से^d
काश्रौसं ३४ : ३.
आहवनीय-स्थान- -ने माश्रु
१, ६, २.
आहवनीया(य-आ)कार^b-
-रे आश्रु १, ६, ३ : ३८.
आहवनीया(य-आ)गार-
-रम् आपश्रौ ५, ४, ६; -रे
आपश्रौ ४, ३, १७; माश्रौ ४, ५,
१; माश्रौ १, ४, १, ११; वाश्रौ
१, १, २, ११; वैश्रौ ३, ९ : ८;
हिश्रौ ६, १, ४०.
आहवनीया(य-आ)मि-

-मिना वैश्रौ १०, ९ : ३; -मिम्
जैश्रौका २१०.
आहवनीयाग्न्या(मि-आ)
यतन- -नम् वैश्रौ १, २ : ९.
आहवनीया(य-आ)कार-
-रेषु हिश्रौ ११, ३, ३.
आहवनीया(य-आ)दि-
-दीनि वैश्रौ १५, २४ : ४.
आहवनीया(य-आ)घान-
पर्यन्त- -न्तम् चाश्रु ८ : ५४.
आहवनीया(य-आ)न्वाहार्य-
-गाहर्षत्या(त्य-आ)वसथ्य-सभ्य-
-भ्यान् वैश्रु ४, १३ : ११.
आहवनीया(य-अ)पनय-
-ये हिश्रौ ३, ८, २२.
आहवनीया(य-अ)भिमुख-
-खः वैश्रौ ७, १४ : ९.
आहवनीया(य-अ)भिसम्प-
-त्ति- -त्तेः काश्रौ १८, ६, ३४.
आहवनीया(य-आ)यतन-
-नम् आपश्रौ ५, ४, ३; माश्रौ
५, २, १९, हिश्रौ ३, ३, ९; दाश्रौ
२, २, ७; लाश्रौ १, ६, ६; -ने
आपश्रौ ८, १, ७; माश्रौ ५, ४,
१६; ६, ७, ७; वैश्रौ ३, १ : ११;
हिश्रौ ३, ४, ३८; जैश्रौ २२ : ९.
आहवनीया(य-अ)र्थ- -र्थे
आपश्रु १, ३, ४४; २, १६, ३; हिश्रु
१, १, ११९; २, ५, ३.
आहवनीये(य-ई)क्षण- -णात्
काश्रौ ८, ७, १४.
आहवनीयो(य-उ)कर- -री
माश्रौ ५, १, १, ४; बौध १, ७,
१६.
आहवनीयो(य-उ)पस्थान-
-प्रभृति- -ति बौश्रौ २५, १९ : ७.

a) षस. उप. = परिवेष्टन-।
यं सोमे इति स्यात् ?।

b) विप.। बस.।

c) सस. उप. = याग-।

d) पाठः १

आहवनीयो(य-उ)स्युक्-

-कम् काश्रौ ६,५,२.

१आ-हुत,ता-^१न्त आश्रौ १,२,७;
शाश्रौ १,४,१३; आपश्रौ २,१२,
६; ६,२४,८^१; बौश्रौ १,१५ :
४; भाश्रौ २,१२,३; ४,१२,६;
६,५,१^१; हिश्रौ २,१,३; ६, ७,
२^१; अश्र १२, २; -तः ऋश्रौ
७, ८, १^२; ८, ९, ७; ऋश्रौ;
बौश्रौ २४, ४ : २^१; हिश्रौ ६,
३, २; १२, ७, ९; १५, ८, ४०;
बौश्र १,१, १^१; ७^१; २,५, १^१;
६, ३०^१; ४, ९, २^१; अप्राय
२, ७; या ७, २४^१; -^१तम्
आश्रौ २, १४, ३१; ४, ७, ४;
शाश्रौ १,१७,१९; ५,१०, २१;
आपश्रौ; या ७, २५^१; ११, ३२^१;
-तस्य द्राश्रौ ७, ३, २१; -ता
अश्र ६, १३३^१; -ताः आपश्रौ
१२, ३, २^१; -ते वैश्रौ १५, ३७ :
१०^१; २०, १६ : ११; -तेन
कौश्र ७, १७.

आहुता(त-अ)नुकृति^१ -तिः
आमिगृ २, ५, ३ : १; बौगृ ३,
७, १.

आहुतो(तउ)च्छेष- -पम्
आमिगृ १, १, २ : ५०.

आ-हुति,ती- -तयः आपश्रौ १२,
१४, ६××; बौश्रौ; या ५, ७;
-तिः आश्रौ ३, १३, १६; काश्रौ;
-तिभिः आश्रौ ३, १०, १८;
काश्रौ ३, ३, २८; बौश्रौ; सु
२, २^१; -तिभ्यः बौश्रौ १७,
२८:३; वाधूश्रौ ४, २५ : २;
-तिभ्याम् आमिगृ १, ७, ३:३०;

-तिम् आश्रौ १, १२, ३१××;
शाश्रौ; जैश्रौका १७४^१; द्रागृ
२, ५, ३५^१; -तिम्ऽ-तिम्
आपश्रौ १८, २१, ११; वाश्रौ ३,
३, ४, ३३; हिश्रौ १३, ७, २०;
-तिषु आपश्रौ २४, ३, १४;
वाश्रौ १, १, १, ५३; हिश्रौ २, १,
१२; -ती आश्रौ ३, १४, २३××;
काश्रौ; -तीः आश्रौ ६, ५, २;
शाश्रौ; कौगृ ३, १५, ४^१; या १२,
३६; -तीनाम् आपश्रौ २,
१४, ७××; बौश्रौ; -तीभिः
आपश्रौ २, २१, ६; बौश्रौ;
-तेः वाधूश्रौ ३, ११ : २;
४; कप्र ३, ८, ७; -तेऽ-तेः
गौगृ २, ३, ७; ५, ५; -ती शाश्रौ
५, १४, १४××; आपश्रौ; -त्या
आपश्रौ ३, ११, २^१; बौश्रौ;
-त्याः आश्रौ ३, ११, २३; बौश्रौ
१७, ३१ : ७; ३५ : ६; -त्याम्
आपश्रौ २, २, ७××; बौश्रौ; -स्यै
आपश्रौ ७, २८, ४; बौश्रौ ६, ३० :
१२; -स्योः बौश्रौ २०, २० :
१५; द्राश्रौ १५, १, १२; लाश्रौ
५, ९, ९.
आहुति-कल्प- -रुपा जुसू १,
११ : ३२^१.
आहुति-गण- -णे आपश्रौ २४,
३, ६.
आहुति-त्रय- -यम् विध २१,
५; ७३, १२.
आहुति-द्वय-पर्याप्त- -सम्
कागृ ४५ : १६.
आहुति-द्वय-होम- -मः काश्रौसं
३५ : ७.

आहुति-परिणाम-वादि (न >)
नी- नीम् शुश्र ३, २५०.

आहुति-परिमाण^१- -णम्
आमिगृ १, १, १ : १८; कागृ ४
४५ : १५; भागृ १, २ : ८; हिगृ
१, १, १८.

आहुति-प्रमाण,णा^१- -णम्
आमिगृ २, ३, १ : १३; वैगृ १,
१४ : १.

आहुति भाज^१- -भाजः आपश्रौ
५, १८, १; हिश्रौ ३, ४, ५४.

आहुति-भूय^१- -यम् बौश्रौ २४,
७ : २.

आहुति-भूयस्^१- -यान् बौश्रौ
२४, ७ : १.

आहुति-मत्- -मसु गोगृ १,
७, १४.

आहुति-मात्र- -त्रात् वैश्रौ २०,
११ : ५.

आहुति-लोक- -कः जैगृ १,
३ : १६.

आहुति-लोप-व्यत्यास^१- -से
अप्राय ४, १.

आहुति-वज्र^१- -ज्रम् द्राश्रौ ४,
१, ११; लाश्रौ २, १, १०.

आहुति-वर्जम् वागृ ४, २५.

आहुति-विंशक- -कम् कप्र ३,
६, ४.

आहुति-वेला- -लायाम् अप्राय
४, २.

आहुति-पाह- -वाहम् बौश्रौ ४,
३ : १८; १०, ५२ : १२; २९,
६ : ६; वैश्रौ २१, १७ : ४.

आहुति-संयोग- -गात् मीसू
१२, २, ६; ४, २६.

a) पाभे. वैप १, ७४२ & द्र. । b) = पाकयज्ञसंस्थाऽन्यतम- । c) विप. । बस. । d) वैतु. पपा.
अन्यथा व्यवच्छेदकः । e) °हुसु° इति पाठः ? यनि. शोषः [तु. छन्दः] । f) ष्तीः इति आन. । g) पाभे.
पृ ४३८ द्र. । h) वैप १ द्र. । i) षस. > दस. । j) मलो. कस. ।

आहुति-संपात- -तान् वाग्य
२, ८.
आहुति-सहस्र- -स्रम् आमिग्य
२, ५, ९ : १४; जैग्य २, ६ : ११;
द्राग्य ४, ३, १५.
आहु(ति>)ती-वृध्- -वृधम्
ऋप्रा ९, १०१.
आहु(ति>)ती-षह- -षहि कौसू
७३, १^b.
आहुती(ति-इ)ष्टका- -काः
बौश्रौ १४, १९ : ९.

आ-हुत्य कप्र ३, ८, ७.

१आ-हुत- आ/हु(दाना°) द्र.

२आ-हुत^c- -ते वैश्रौ २०, ४ : ३.

आ-हुवध्वै, आ-हूत- प्रभु. आ/हे द्र.

आ/ह, आहरते आपश्रौ ६, २८, ११;
वैश्रौ २, ११:१०१; वैग्य ३, १:९;
आहरति आश्रौ ५, ५, ७××; काश्रौ;
हिघ १, १, १२२^d; आहरतः
काश्रौ १४, २, ८; २२, १०, २१;
आपश्रौ ८, ५, २६; कौसू १९,
४; आहरन्ति शाश्रौ १, १२,
९××; काश्रौ; आहरामि अप
४६, ५, ११; आहरातै बौध १,
२, ५२१; आहरताम् बौश्रौ १८,
३५ : २; ५० : ३०; ऋआ...
हरन्तु आपमं १, १, ७; कौसू ७५,
१७; ऋआहर काश्रौ ६, ४, ९××;
आपश्रौ; या १०, १५^e; आ(हर)
साश्र १, ४३१; आहरत जैश्रौ
१५:१८; आहराणि शाश्रौ १२,
१७, १; आहराम वाधूश्रौ ४,
४८:२; आहरत् शाश्रौ १४, ६-९,
१××; बौश्रौ; या ७, २६; आहरन्

बौश्रौ १८, ३४ : ६; ७^२; १५;
वाधूश्रौ ४, २६^२ : ७^२; ४८ :
२; आहरम् सु ३०, १;
आहरेत वैग्य १, ९ : ७; आहरत्
आश्रौ २, १, १६××; काश्रौ;
आहरयुः आपश्रौ ६, २, १६^२;
बौश्रौ.

आजहार निसू ७, १ : ११; ११ :
२२; आजहुः वृदे ८, ३१; आह-
रिष्यति आपश्रौ ९, २०, ९^२;
आहरिष्यसि सु १४, ५; आहरि-
ष्यामि सु १२, १; १७, ३; २०,
२; आ...अहार्षित् अप ३२, १,
१२१; ऋआहाः आमिग्य १, ५,
४ : १५; तैप्रा ८, १३; अप्रा ३,
१, १; ऋआहार्षीः कौसू २०, १८;
या ५, ४; ऋआहारिषम्^f कौग्य
२, ६, ६; भाग्य १, ८ : १३;
ऋआहार्षम् आपमं २, ६, २^१;
आग्य १, २१, १^१; २, १, ९; शाग्य
२, १०, ३^१; आमिग्य १, १, ४ :
२^१; वैग्य १, ६ : १०; हिग्य १, ७,
२^१; गोग्य २, १०, ४२^१; जैग्य १,
१२ : ३८^१; ३९^१; कौसू ५७,
२६^१; ८९, १२^१; ऋप्रा १६, ५१;
ऋआ...अहार्षम्^g काश्रौ १६,
५, १६; आपश्रौ १६, १०,
१४; बौश्रौ १०, १६ : ७, माश्रौ
६, १, ४, १३; वाश्रौ २, १,
३, १२; वैश्रौ १८, ८ : ९; २१,
१४ : १६; हिश्रौ ११, ३, ३५;
वैताश्रौ २८, १६; आग्य ३, १२,
२; पाग्य १, १०, २; वैग्य १, ४ :
२८; २, १० : १२; कौसू ५९,

१३; ९८, ३; १४०, ८; अप
१९, १, ७; अअ ६, ८७; ऋआ
(अहार्षम्) ऋअ २, १०, १७३;
वृदे ८, ७३; शुभ्र २, ८७.
आह्रियते निसू ३, २ : १८;
आह्रियन्ते निसू ३, ३ : २५.
आहारयति बौश्रौ १७, ४३ :
६××; वैताश्रौ; आ...हारयति
बौश्रौ ४, १ : ३१; १७, ११ : ३;
आहारयेत् बौश्रौ २२, ८ : ४××;
द्राश्रौ.

आहर^h > ऋ-क(ट>)टा-, °वे
(ल>)लाⁱ-, °निव(प>)पा-,
°निष्क(र>)रा-, °वनि(त>)
ताⁱ-, °वस(न>)ना-, °से-
(न>)ना- पा, पाग २, १, ७२.

आ-हरण- -णम् काश्रौ ४, १३, ६;
१४, ३; ९, १, ७; बौश्रौ २९,
१२ : २०; भाश्रौ; -णाव् भाश्रौ
२, ३, ५; ८, १, १२; हिश्रौ १,
६, १०३.

आहरण-प्रीति- -स्या बौश्रौ ५,
१५ : २०.

आ-हरत्- -रन् आपश्रौ १, ५,
५१××; भाश्रौ; -रन्तम् बौश्रौ
६, ७ : २३; कौसू ७८, १.

आ-हरमाण- -णः आपश्रौ १७,
२४, ६; ८; बौश्रौ २, २० : ५;
२५, ३० : १२.

आ-हरिष्यत्- -ष्यन् बौश्रौ १८,
४९ : १३; आमिग्य.

आ-हर्तवै सु ११, ३.

आ-हर्तु- -र्ता विघ ५, १८५; -र्तारः
बौश्रौ २१, ७ : ४; -र्तारम् या

a) वैप १ द्र. । b) ष्हिः इति पाठः (तु. भू. XLVII) ? यनि. शोषः (तु. प्रकरणम्) । c) ईषदर्थे
प्रास. । d) सपा. आहरति<>उपहरति इति पाठे. । e) वैप १, ६७७ ण द्र. । f) सपा. ऋषिम्<>
र्षम् इति पाठे. । g) पाठे. वैप १, ७४४ ण द्र. । h) लोटि मपु१ अन्तुकरणम् । i) °वेटा इति MW. ।
j) तु. पाका. पासि. पागम. । °वितना- इति भाण्डा., °वितना- इति BPG. ।

७,२६.
 †आ-हृतोस् (ः) आपश्चौ ४, २, ३;
 भाश्चौ ४, ३, ३.
 आ-हार^१ -रः हिश्चौ ७, १, ५; वैष्ट
 ३, १० : २?०; वाध २७, १४;
 शंघ १५९; विध २२, ८८; -रम्
 जुस् ३, १६ : ३; शंघ ९०;
 १५९; ३९४; या ५, ४१; -राः
 या १४, ६१; -राणाम् निसू ६,
 १ : १७; -रेषु^० वैश्चौ १८, १२:
 ३; आपश्चु १०, १३.
 आहार-निर्हार-विहार-योग-
 -गाः वाध ६, ९.
 आहार-पान-सिक्त्व^१-
 -त्वात् या १४, ७.
 आहार-पृथक्त्व- -क्त्वे आपश्चौ
 ३, १४, १०; १०, २, १; हिश्चौ ७,
 १, ३.
 आहार-मन्त्र-संकीर्ण- -र्णाः
 बौध २, ३, ९.
 आहार-मय- -यम् शंघ ३४०.
 आहार-मात्र- -त्रम् बौध २,
 १०, ५२.
 आहार-मूल^०- -लाः वैष्ट ३, ९ :
 ९.
 आहार-व्यपदेश- -शः मीस् २,
 ४, २४.
 आहार-शुद्धि- -द्धिम् वाध
 २७, १०.
 आ-हारयित्वा गोगृ ३, ९, ४.
 आ-हारयित्वात् -व्यन् कौस् ९०,
 १.

आ-हार्य हिश्चौ १०, १, २; आमिष्ट
 १, ४, १ : २; पाष्ट १, ३, ४;
 कौस् १९, ७, ८; ३०, १३.
 आ-हार्यार्था- -र्थः आश्चौ २,
 १५, १४; आपश्चौ; -र्थम्
 वाश्चौ १, ४, ३, ५; बौध ३, ८,
 ३५; -र्थस्य शाश्चौ ७, २७, २९;
 -र्थाः वैश्चौ २०, ९ : ३; -र्थाणि
 शंघ २६२; -र्थाम् बौश्चौ २५,
 २७ : १५; १६; १९; २२;
 २३; २८; ३०; -र्थे बौश्चौ २५,
 २८ : ३; ४; ७; १०; १२; १७;
 १८; -र्थेण आश्चौ ६, १०, ९;
 द्राश्चौ ७, ४, ६; लाश्चौ ३, ४, ५.
 आहार्य-पुरी(ष>)वा^०- -वाम्
 काश्चौ २, ६, ४; आपश्चौ २, ३,
 ५; भाश्चौ २, ३, १; माश्चौ १,
 २, ४, १९; वाश्चौ १, ३, १, ४७;
 वैश्चौ ५, १ : ७; हिश्चौ १, ६,
 ९९.
 ?आ-हार्यमा(ण>)णा- -णाः
 वाश्चौ १, ३, ३, १^१.
 आ-हृत,ता- -तः काश्चौ ७, २, १;
 २५, ३, १०; वाधूश्चौ ४, १६ :
 १; ४^२; सु २९, १; ४; -तम्
 आश्चौ ५, १९, ४; ६, ३,
 १९६; १२, १; काश्चौ;
 हिश्चौ ११, ७, ५१^३; पा ५, १,
 ७७; -ता वाधूश्चौ ४, ३७ :
 ३०; -ताः निसू ५, ९ : ५;
 -ताभिः वैश्चौ १२, २३ : ५;
 -ताम् वाध १४, १६; आपध

१, १९, १३; हिध १, ५, ११५;
 -तासु बौश्चौ ४, ३ : ३२××;
 -ते जैश्चौका ७, ९४; कौस् ९२,
 ३०.
 आहृत-प्रकरण- -णे पावा ५, १,
 ७७.
 आ-हृत्य शाश्चौ १३, ६, १××; काश्चौ.
 आ-हृत्य- -स्यः आपश्चौ १४, २६,
 ५; हिश्चौ १५, ६, ३६.
 आ-हृत्वा सु ११, ५; ६.
 आ-हियमाण,णा- -णम् आश्चौ १,
 १३, १; आपश्चौ; -णयोः शाश्चौ
 ५, १०, १०; -णाम् आपश्चौ ४,
 १०, ७; बौश्चौ; -णासु आपश्चौ
 १४, ८, ६; हिश्चौ १०, ८, २५; -णे
 आश्चौ ४, ७, ४; आपश्चौ; -णेषु
 काश्चौ २५, ७, ५; माश्चौ ५,
 २, १६, ५.
 १आहेय- १अहि- द्र.
 ?२आहेय^१- -यम् निसू ६, १० : ९;
 ७, ८ : ३७^१!
 आहो^१ या १४, १०; पा ८, १, ४९;
 पाग १, ४, ५७; पावा ८, १, ७२.
 आहो-स्वित् पाग १, ४, ५७.
 आहोपुरुषिका- अहो द्र.
 आह्रक^१- -रः शाश्चौ १६, ९, ११^३;
 -रस्य शाश्चौ १६, ९, १३^३.
 आह्र- , आह्रिक- अहन्- द्र.
 आ/ह्राद् > आ-ह्रादित- -तम्
 जैश्चौका १०.
 आह्रक^३- -काः नाशि १, १, ११;
 चव्यू २ : ३.

a) भाव., नाप.। b) वा. ? रस्य इति C. शोधः ?। ०रे इति मतम्। c) सपा. हिशु ३, ५३ पूर्वेषु
 समस्तं द्र.। d) द्रस. > नृस.। e) विप.। बस.। f) यामन्वाह^० इति पाठः ? यामन्वा (न-आ)हा^० इति शोधः।
 पाभे. पृ ४७७ उ द्र.। g) आहु^० इति BI. पाठः ? यनि. शोधः (तु. आन., भाष्यम्)। h) पाभे. वैष १ परि.
 आभृत्तम् मे २, ७, १६ टि. द्र.। i) अर्थः व्यु. च ? अहिना दृष्टम् इति कृत्वा =साम-विशेष- ?। j) अहेयम् इति
 पाठः ? यनि. शोधः। k) अव्य.। व्यु. ?। l) =नृप-विशेष-। व्यु. ?। m) पाभे. वैष २, ३खं. आह्रणार्ः,
 अह्रणार्स्य माश १३, ५, ४, ४ टि. द्र.। n) [आह्रात्-अवर्तक-] आचार्य-विशेष-। व्यु. ?।

आ/हे, ऋआहुवे बौश्री २, १० : १३;
 १३, ३९ : १४; बौगृ २, ११,
 ३१; ऋआ(हुवे) आश्री २, ८, ३;
 माश्री ५, १, ६, ३८; वैश्री १,
 १७ : १२; ऋअ २, १, ११९;
 साअ १, २९५; ऋआहुवामहे
 आश्री २, ७, ८^a; शाश्री ३, १७,
 ३^a; आपश्री १, १०, ५^a; बौश्री^a
 २, १० : ३९; ३, ११ : २४; ५,
 १५ : २३; माश्री १, ९, १३^a;
 वाश्री १, २, ३, ३३^a; हिश्री २, ७,
 ५३^a; द्राश्री १३, २, ८^a; लाश्री
 ५, २, ११^a; या ११, ५०;
 आहुवामहि वैताश्री २०, ९^a;
 ऋआहुवेम आपश्री ९, ८, ८; बौश्री
 १३, ४३ : १४; बौगृ १, ६,
 १८.
 आह्वयते शाश्री १७, १७, १३;
 काठश्री; आह्वयति आश्री ४,
 ७, २; काश्री; आह्वयन्ति बौश्री
 २५, १३ : ८; आह्वये या ११,
 ३३; ऋआह्वयामि आपश्री ६, ३,
 ८; हिश्री ६, ६, ६; आह्वयामहे
 या ११, ५०; ऋआह्वयतु बौश्री ६,
 ३१ : २२; ३४ : ७; ऋआह्वय
 आपश्री १०, २८, ४ × ×;
 काठश्री; आह्वयत>ता भाशि
 ११३^क; आह्वयत् अअ १, ८;
 २, ५; ३, १६; ४, १५; ३८; या
 ५, २१; आह्वयन्त या ५, २५;
 आह्वयन् वृदे ७, १००; आह्वयित
 आश्री ५, १०, ७; ८, १३, ४;
 १०, ६, १२; आह्वयेत् जैश्रीका
 ८५ × ×; द्राश्री; आह्वयीरन् आश्री
 ५, १०, २.
 ऋआह्वयामहि अअ ४३, ६, ४^b;

४४, ४, ११; ऋआह्वयामहे^a काश्री
 ५, ९, १७; कौसू ८९, १.
 ऋआ(अजोह्वुः) आश्री ७, २,
 १०; शाश्री १२, २, १९.
 आ...जुहे भाशि २३^क; आजु-
 हाव वृदे ४, १३१; आह्वयति
 बौश्री ६, १६ : २; आह्वयः बौश्री
 ६, १६ : २^क; ओ(आ+उ)आ...
 अहे आश्री ४, १५, २^क; ओ(आ+
 उ)...(आ...अहे)वृदे ६, ६२^क.
 आह्वयते बौश्री २५, १३ : ५; ६;
 वैताश्री २०, १५; ऋआ(ह्वयते)
 शाश्री १२, १०, ११; आह्वयन्ते
 वैताश्री ३४, ३; आह्वयेत माश्री
 २, ४, २, २२.
 आह्वयति बौश्री १८, २० :
 ९; २६, ३२ : ३.
 आ...जोहवीति आश्री ३, ७,
 १२^क.
 आ-हव^c- पा ३, ३, ७३; -वाः अअ
 ७१, ८, ४; -वे गौध १०, १६;
 निघ २, १७^क.
 ✓आहवि, आह्वयेत् वाध १९,
 १९.
 आ-हाव^d- पा ३, ३, ७४; -वः
 आश्री ५, ९, २; १०, १६; १४,
 ३; १८, ४; ६, ३, १८; ५, २०;
 शाश्री ७, ९, १; १०, ४; ८; १९,
 ६; २१; २१, ८; ८, ३, ५; ७, ६;
 ९, ६, १७; २०, २८; १०, १३,
 २४; अअ ४८, १०५; या ५,
 २६^क; -वात् हिश्री ९, ४, ३५;
 -वान् वाश्री २, १, ५, १^क; वैश्री
 १८, १५ : १०; हिश्री ११, ६,
 २३; -वे आश्री ५, ९, ५; शाश्री
 १७, १७, १२; -वेषु आपश्री

१६, १८, २; वैश्री १८, १५ : ९;
 हिश्री ११, ६, २४; वैताश्री २०,
 १९.
 आहाव-प्रतिगर-वर्जम् वैताश्री
 १४, १.
 आहाव-प्रभृति- -ति शाश्री ८,
 १५, २.
 आहावो(व-उ)क्यसंपद्- -पदौ
 वैताश्री २६, ४.
 आहावो(व-उ)त्तर- -रे आश्री
 ५, ९, ७.
 ऋआ-हुवध्वै^e आश्री ३, ७, १३;
 आपश्री १९, १८, ८; माश्री ६,
 १, ९; ऋअ २, १, १२२.
 आ-ह्वत, ता- -तः माश्री २, ४, २,
 २६; जैश्रीका २९; पागृ २, ५, २९;
 आपध १, ८, ७; हिध १, २, ९५;
 -तम् या ६, २; -ता मीसू
 १२, २, ११; -ताः जैगृ २, १; ५^क;
 -ताम् आपश्री १०, २८, ६^३;
 -ताम्-ताम् वैश्री १२, २० :
 ७; -तायाम् आपश्री ११, २०,
 ५ × ×; बौश्री; -तासु द्राश्री
 १४, २, ८.
 आह्वता(त-अ)ध्ययन- -नम् विध
 २८, ६.
 आह्वता(त-अ)ध्यायिन्- -यी
 वाध ७, १३; आपध १, ५, २६;
 हिध १, २, २६; गौध २, ३६.
 आ-ह्वय आश्री ५, ९, १ × ×; शाश्री.
 आ-ह्वयमान, ना- -नः या ८, ८;
 -नाम् हिश्री ६, ६, ६; -नायाः
 द्राश्री ९, ४, २५; लाश्री ३, ८,
 १६; -नायाम् शाश्री ५, १०,
 १; -नासु द्राश्री १४, १, ७;
 -नैः आमिगृ ३, ६, २ : ८.

a) पामे. वैप १, ७४५ m द्र. ।

b) पामे. वैप १ परि. आहुवामहे टि. द्र. ।

c) वैप १ द्र. ।

d) = शौसावोम् ।

भा-ह्वयत्- -यति काश्रौ २, ४, १५.
 भा-ह्वयान- -नम् विध १, ३५.
 भा-ह्वयितवै काश्रौ ५, ६, ३१.
 भा-ह्वान- -नम् आश्रौ ५, ९, १३; १९;
 १०, ८; १३; १५, १९; २०, ६^३;
 ८, ६, १८; ९, ६, ३; वृदे ७,
 १५३; मीसू ३, २, ५; -नात् या
 ५, २६.
 भाह्वान-समय- -ये जैश्रौका
 ८९.
 भाह्वाना(न-अ)र्थ- -र्थः निसू ३,
 ८ : ७.

इ

इ^१- पाठ १, ५, ९^{१०}; शुभ्रा ८, ३; ऋत
 ५, ३, ३; याशि २, ९४; पाग
 १, ४, ५७.
 इ-उ-वर्ण- -र्णाभ्याम् नाशि २,
 ६, ६; -र्णौ माशि ७, ६; याशि
 १, ८०; नाशि २, १, २.
 इ-उ-संधि- -धौ ऋप्रा १४, ६०.
 इ-कार- -रः अप ४७, ३, ३; ऋप्रा
 १३, ३९; तैप्रा २, २८; शौच
 १, ९६; याशि १, ८१; -रम्
 निसू ३, ११ : १३; शैशि ११८;
 १८७; माशि ७, ४; याशि २,
 १७; नाशि २, १, ६; ६, ९;
 -रयोः ऋप्रा ३, १३; शौच ३,
 ५६; -रस्य ऋप्रा १४, ४५;
 शुभ्रा ३, १३८; -रात् अप्रा ३,
 ३, २१; -रेण माशि ७, ४;
 याशि १, ८१; नाशि २, १, ६.
 इकार-वत्- -वान् भाशि ८.

इकारा(र-आ)दि- -दिः भाशि
 ९; -दिम् लाश्रौ ७, ८, १६;
 -दौ अप्रा १, १, ८; पावा ६,
 १, ८९.

इकारादि-प्रहण- -णम् पावा
 ७, ३, ८.

इकारा(र-आ)द्य(दि-अ)न्त^०-
 -न्तौ लाश्रौ ७, ४, ३.

इकारा(र-अ)न्त^१- -न्तः ऋप्रा
 ९, ३८; -न्तम् लाश्रौ ७, ८, १९;
 -न्ते नाशि २, २, १; २; -न्तैः
 द्राश्रौ ६, ३, २०; लाश्रौ २, ११,
 १४.

इकारे(र-ई)कार- -रौ निसू
 ३, ११ : ११; उसू ७, ३.

इकारेकार-वर्जम् उसू ८, ३.

इकारै(र-ऐ)कार- -रौ ऋप्रा १,
 ४२.

इकारो(र-उ)द्वय^१- -यः ऋप्रा
 २, १६.

इ-च-शे(श्-ए-)य- -याः शुभ्रा १,
 ६६.

इ-सु-य-श- -शाः आशि १, १२;
 पाशि १७.

इ-पर- -रः ऋप्रा १, ४.

इ-वर्ण- -र्णः शुभ्रा १, ११६; ४,
 ५४; -र्णम् शुभ्रा ४, १३५; ७,
 ३; -र्णस्य अप ४७, २, १; -र्णौ
 तैप्रा २, २२; शौच ३, ४४.

इवर्ण-पर^१- -रः तैप्रा १०, ४.

इवर्ण-स्थ- -स्थः अप्रा ३,
 १, ७.

इवर्णा(र्ण-आ)दि^१- -दयः आशि

६, ३.

इवर्णो(र्ण-उ)कार- -रयोः तैप्रा
 २०, १; कौशि १२; -रौ तैप्रा
 १०, १५.

इवर्णो(र्ण-उ)प(धा>)ध^१- -धः
 हिश्रौ २१, २, ३४.

यु(इ-उ)-वर्ण- -र्णौ शुभ्रा १, ११५.
 ✓इ^१ पाधा. भ्वा^१. अदा. पर. गतौ, स्म-
 रणे; आत्म. अध्ययने, ऋभ्यामि
 आश्रौ २, १२, ५; ७, ११, २२;
 शाश्रौ १०, ५, ४; बौश्रौ २८,
 २ : ३२; हिश्रौ १६, ८, १९.

एति आश्रौ १, ११, ९; ४,
 ६, ३^१×^४; शाश्रौ ५, ९,
 ६^१×^४; १८, १, २^१; आपश्रौ;

बौश्रौ १०, ५१ : २७^१; वैश्रौ
 १९, ६ : ८३^१; हिश्रौ १२,
 ५, ६^१; वैताश्रौ ८, १७^१; निघ

२, १४; या ३, ३^१कुं; पा ४,
 ४, ४२; इतः बौश्रौ १८, ३५ :

६; क्षुसू ३, ३ : १५; ४ : ४;

यन्ति ऋश्रौ ३, ८, १×^४;

शाश्रौ; आमिष्ट २, १, ३ : १८^१;

हिष्ट २, ३, ७^१; ऋषि आपश्रौ
 ७, १६, ७; वृदे ६, १०२; या

१२, २८; अप्रा २, १, ५; शैशि
 ३३०; इथः^१, इथः^१ माश्रौ ५, २,
 १३, १; ऋमि भाशि ११८;

१२०; ऋमि भाश्रौ १०, २, ३;
 वायूश्रौ ३, ५ : ३३; हिश्रौ ६,
 ७, ८^१; लाश्रौ ३, ३, १^१; माष्ट

१, २७ : ३^१; हिष्ट १, २९, १^१; या
 १२, ७; इमः ऋप्रा ४, ५१^१; ऋसू

a) वर्ण-त्रिशेष- । व्यु. ? । b) निपातः । सपा. तै ३, ४, ४, १ हि इति पाभे. । c) विप. । बस. >
 द्रस. । d) विप. । बस. । e) या १, १३; ७, १४; १०, १; ११, २४ अप्रा ३, २, ५ पा २, ४, ४५; ६, ४, ८१; ७, ४,
 २४ पावा २, ४, ३ परामृष्टः द्र. । f) ✓कटी (टी/इ) इत्यत्र प्रश्लिष्टः द्र. । g) पाभे. वैप १, ७४९० द्र. ।
 h) सपा. एति <> गत्वा इति पाभे. । i) अन्वेति इति C. शोधः । j) सपा. यन्ति <> गच्छन्ति इति पाभे. ।
 k) एषि > [ऊहविधया] यनि. (तु. मै १, २, १५) । l) पाभे. वैप १, १०२४ d द्र. ।

आश्रौ ४, १३, २××; आपश्रौ १६, २९, १९; वैश्रौ १८, १५, १९^९; २० : १२^९; हिश्रौ ११, ६, ३०^९; ८, २^९; आपमं १, ५, ४^९; आमिष्ट १, ५, २, ५०^९; ६, २, ८^९; बौष्ट १, ४, २९^९; गोष्ट २, १, २३^९; द्राष्ट १, ३, ११^९; ऋयन्तु आपश्रौ १६, २९, १; बौश्रौ; माश्रौ १, ८, ३, ३^९; ऋहि काश्रौ ९, ७, ४; १०, १, १८; आपश्रौ ३, १४, २^९; ७, १६, ७^९; १२, १७, २०^९; आश्रौ ३, १३, १^९; हिश्रौ २, ६, ३४^९; ६, ८, ४^९; आमिष्ट ३, ५, ६ : ५; ६^९; बौपि १, ४ : २२^९; २, ९, ६; भाष्ट २, २८ : ९; कौस् २, ६; इतम् माश्रौ ५, २, १३, १^९; ऋहत्, > ता बौश्रौ १, २१ : ३१; ४, १० : २४; ८, ६ : १९; माश्रौ ५, २, १३, १^९; वाधूश्रौ ४, २६^९; ७; कौस् ३, ३; अप ३७, १८, १; भाशि १२०^९; ऋयानि शाश्रौ १४, २, १६; १३, ३; अयाम भाशि ७७^९; ऐत् आपश्रौ १९, २३, १३; बौश्रौ १३, ३१ : १०; १८, १९ : १६; २३, ३ : ३१; माश्रौ ५, २, २, ६; वाधूश्रौ ४, ३० : २; हिश्रौ २२, ५, १; ऐताम् बौश्रौ १८, ५० : ३२;

वाधूश्रौ ४, ७९ : १; ऋयान् आश्रौ १, ३, २७××; शाश्रौ; आपश्रौ १६, १२, १^९; हिश्रौ ११, ४, १३^९; आपमं २, ३, २^९; ऋितम् आश्रौ ४, ९, ४; अप्रा ३, २, ५; ऋिम् आमिष्ट ३, ७, १ : २१; बौपि १, १७ : २०; इयात् शाश्रौ ३, १९, ९ × ×; आपश्रौ; गौघ ३, १४; इयाताम् बौश्रौ २०, ११ : २५; माश्रौ ५, १, ७, ३; इयाम् आश्रौ ९, ७, ३५; आपश्रौ १९, २३, १०; २२, ७, २१; बौश्रौ; इयाव बौश्रौ १८, ३५ : २, ५; इयाय बौश्रौ १८, १५ : १४; बौपि २, ९, १२^९; वाध १७, ३५^९; वृदे ६, ११४; ईयुः आश्रौ १२, ७, १०; काश्रौ २४, ५, २; बौश्रौ २, ८ : २९^९; १७, १९ : ११; वाधूश्रौ ४, १ : ३; वैश्रौ १९, ४ : ६^९; हिश्रौ १६, ८, १५^९; लाश्रौ १०, ६, १५; निस् ९, ११ : ४; बौष्ट २, ११, ३३^९; हिपि १९ : १२^९; ऋया ११, १८^९; १२, ३७^९; ऋया ५, ३८^९; तैप्रा ६, ५^९; भाशि १४^९; ऋयथ साध १, २७१; ऋत २, ६, ७; एव्यति लाश्रौ ८, ८, ३४; एव्यतः

बौश्रौ १८, ४४ : २१; एव्यसि आपमं २, २२, ५; भाष्ट २, २७ : १५; हिष्ट १, १४, २^९; एव्यामः शाश्रौ १४, ४०, १. इत्, ता- -तम् आपश्रौ ६, २५, ४^९; वाधूश्रौ ३, ४ : ७; ११ : ४; -ता या ३, १०; -तात् या ७, १४. ऋहत्(त-अ)सु^९ -सुः बौश्रौ ८, १४ : १०; वैश्रौ १६, १७ : २; हिश्रौ ९, ४, ११; -सुम्^९ आमिष्ट ३, ५, ६ : १६; बौपि १, ५ : ३. इत्य- पा ३, १, १०९. इत्या- पा ३, ३, ९९. इत्वर- पा ३, २, १६३; -रम् या ५, ३^९. इत्वा बौश्रौ १६, १६ : १; निस् ५, ३ : ३१; ४ : ११; आपष्ट २२, १३; भाष्ट २, २६ : १. इन्वान- -नः गो १, ७. इव्यै^९ ऋया २, ७३^९. ऋयान, ना- -ना^९ आश्रौ २, ८, ३; शाश्रौ २, ४, ३; -नाः बौश्रौ १२, ११ : ८^९. ईयुष्टी^९ -ष्टया आमिष्ट ३, ७, ३ : २४; बौपि २, २, २. ऋयत्तवै आपश्रौ १७, १८, १; शुप्रा

- a) पाभे. वैप १, ७४९८ द्र. । b) पाभे. वैप १, ७४७^९ परि. च द्र. । c) पाभे. वैप १, १३७६ l, परि. च द्र. । d) पाभे. वैप १ परि. एतु खि २, ११, १ टि. द्र. । e) पाभे. वैप १, ७४९ b द्र. । f) पाभे. वैप २, ३खं. इहि माश ४, २, ५, ११ टि. द्र. । g) एहि इति पाठः ? यनि. शोधः (तु. सप्र. तैआ ६, १, २ बौपि १, ४ : २२^९) । h) इहि > ऊहविधया यनि. (तु. मै १, २, १५) । i) पाभे. वैप २, ३खं. इत् तैआ २, ३, १ टि. द्र. । j) पाभे. वैप १, ७४६ q द्र. । k) पाभे. वैप १ परि. आसन् ऋ १, १०९, ७ टि. द्र. । l) पाठः ? ऐत् इति शोधः (तु. ऋ १०, १८, २) । m) पाभे. वैप १, ७५१ e, परि. च द्र. । n) छेव्यसि (तु. कै^९ इति संस्कृत्यः शोधः ?) इति पाठः ? के(क-ए)व्यसि इति शोधः (तु. आपमं., सप्र. पाष्ट ३, ७, २ क गमिष्यसि इति पाभे. च) । o) वैप १ द्र. । p) पाभे. वैप १ परि. गतासुम् ऋ १०, १८, ८ टि. द्र. । q) पाभे. वैप १ वाधूश्रौ तै १, ८, २२, १ टि. द्र. । r) पाभे. वैप १, ७५१ y, परि. च द्र. । s) विप. । < ईयुष्टे (ऋ १, ११३, ११), शिष्टं पृ २४३ छ द्र. ।

२,४७.
 एतव्य- -व्यम् लाश्रौ १०, ६, ९;
 -१२; ७, १; निसू ५, ३: २८;
 ४: ५.
 एतोसः (:) आश्रौ ९, ८, ४१.
 एमन्- -मन् काश्रौ १७, ६, २;
 आपश्रौ १६, २८, ४; बौश्रौ १०,
 ३५: १; माश्रौ ६, १, ८, ४;
 वाश्रौ २, १, ७, १६; वैश्रौ १८,
 २०: १; हिश्रौ ११, ८, १; चाश्र
 १६: २८; शुप्रा ४, ५६^२; तैप्रा
 १०, १४; -न्ना आपश्रौ १९,
 १३, ७; हिश्रौ २३, २, ४०.
 एमन्ना (न-आ) दि- -दिषु पावा
 ६, १, ९३.
 एव^१- पाउ १, १५२; -१०व
 आश्रौ ६, २, १२; ३, १६; बौश्रौ
 १९, १०: ४७; -१वः काश्रौ
 १७, ११, ५; आपश्रौ १७, ३, ४;
 बौश्रौ १०, ४५: ५; माश्रौ ६,
 २, २, २; वाश्रौ २, २, १, २१;
 वैश्रौ १९, ४: ११; हिश्रौ १२,
 १, ३१; तैप्रा १०, १४; -वा:
 आश्रौ ६, २, १२^३; ३, १६^३;
 बौश्रौ १९, १०: ४७; -वै:
 बौश्रौ १३, ४०: ४; या २,
 २५४; १२, २१४.
 एव-या^१->०या-मरुत्^१ -रुत्
 आश्रौ ८, ४, २; ९, १०, १६;
 ऋश्र २, ५, ८७^०; साश्र १, ४६२^०;
 -रुतः शाश्रौ १२, ६, १४; ८,
 १०; ९, ७; चाश्र ३९: १९^०;
 -रुतम् आश्रौ ८, ४, १२; शाश्रौ

११, १५, १०; १२, २६, १०;
 बौश्रौ १६, ५: २०; २६, १४:
 ६; वाश्रौ ३, २, २, ५.
 एवयामरुद्-भाख्यात- -तम्
 वृदे ५, ९०.
 एव-यावन्- -न्नः शैशि ७३^१.
 एष्यत्- -ष्यत् वाध २०, ३६;
 -ष्यन् आपश्रौ ६, २४, ५; १९,
 २३, १२; बौश्रौ; -ष्यन्तः आश्रौ
 १०, ५, १२; बौश्रौ १६, २९:
 ५××; भाश्रौ ७, १, ४.
 यत्- यतः आपश्रौ २२, ६, १८;
 वाधूश्रौ ४, १०३: १०^१××;
 हिश्रौ १७, २, ६२; कौसू ८०,
 ४७^१; शुप्रा २, ५८^१; यताम्
 बौश्रौ १६, ११: १०; १९: ५;
 ९; १२; यन् वाधूश्रौ ३, २१: ३;
 वृदे ४, १०६; ऋयन्तः आपश्रौ
 २३, १४, १६; बौश्रौ १०, ५२:
 ७××; वाधूश्रौ; या १३, ८४;
 यन्तम् बौश्रौ ४, ९: १६^१××;
 मागृ; यन्तौ माश्रौ ५, २, १३, १.
 यती- -ती आपश्रौ १२, १५,
 ६^०; हिश्रौ ८, ४, २१^०; आपमं
 १, ४, ४^१; बौगृ १, ४, १७^१; जैगृ
 १, २१: २१^१; -तीम् आपश्रौ
 १०, २२, १०; वाधूश्रौ ४, २८^२:
 ६; कागृ २५, ४७.
 इक्कट^१- (>०टिक^१-, ०टिन्^१-पा.)
 पाग ४, २, ८०^२.
 इक्कस्त^१- पाग २, ४, ३१^६.
 इक्षु^१- पाउ ३, १५७; पाग ४, २, ८६;
 ९१; ३, १३६; ४, १०३; ५, १,

५०; ४, ३; ८, २, ९; पावा ५,
 २, २९; फि ५७; -क्षवः बौश्रौ
 २८, १३: १०; -क्षुणा अप
 ४८, ११६; -क्षून् शंघ २२०;
 आज्यो ३, ३^१म.
 ऐक्षव- पा ४, ३, १३६; -वम्
 विध २२, ८३.
 ऐक्षवी- -वी आपश्रौ ७, ७,
 ७; १०, ३०, ३; बौश्रौ ६, १०:
 ६; १८: १७; २०: १६;
 ३१: ४; वैश्रौ १०, ६: ९;
 हिश्रौ ४, ५, ६५; तैप्रा ४,
 १२^१; -वीभ्याम् बौश्रौ ६, १८:
 ३; -व्यौ काश्रौ ८, १, १०.
 १ऐक्षुक- पा ४, ४, १०३; ५, १,
 ५०.
 इक्षु-क- पा ५, ४, ३.
 इक्षु-काण्ड- -ण्डम् गो २, १६;
 -ण्डेन आपश्रौ ८, ४, १; १४,
 १४; २१, १८, ९.
 इक्षुकाण्ड-क- -कम् अप ९,
 २, १.
 इक्षु-काश-का(ण्ड>)ण्डी- -ण्डया
 कौसू २३, १५.
 इक्षुकीय- पा ४, २, ९१.
 २ऐक्षुक- पा ६, ४, १५३.
 इक्षु-कुट्टक- पाउ २, ३२.
 इक्षु-लक्ष-वट- -टानाम् काध २७६:
 २.
 इक्षु-भार- (>ऐक्षुभारिक- पा.)
 पाग ५, १, ५०.
 इक्षु-मत्- पा ४, २, ८६; ८, २, ९.
 इक्षु-रस- -सः शंघ १८१; -सेन

a) वैप १ द्र. । b) =सूक्त-विशेष- । तेनदृष्टीयस्य प्र. लुक् । c) =ऋषि-विशेष- । d) यत्ते इति
 पाठः ? यनि. शोधः (तु. सप्र. मा ११, ३) । e) पाभे. वैप १ युदि ऋ ३, ३१, ६ टि. द्र. । f) पाभे. वैप १ परि.
 यतीः (<✓इ) शौ १४, २, ५२ टि. द्र. । g) अर्थः व्यु. च ? । =चषक- इति पागम. । h) =देश-विशेष- ? ।
 ३) इक्कट-, इक्कट-, १उक्कट- इति पाका. । j) अर्थः व्यु. च ? । k) इक्कस- इति पाका., इष्वास-
 इति [पक्षे] भागडा. प्रथ. । l) नाप. । व्यु. ? । m) इक्षवः इति पाठः ? यनि. शोधः ।

बीग ३, १०, ४.

इक्षुरसो(स-उ)दक^१ - कम् शंघ
११६ : ७.

इक्षु-विकार- -राणाम् विध २३,
३१; -रैः अप ४४, ३, १०.

इक्षु-शाला (क >) का- -कया
आपश्रौ ८, ४, १; १४, १४;
बौश्रौ ५, ११ : २१; भाश्रौ ८,
१६, १०; माश्रौ १, ७, ६, २०;
६, १, २, १२; वाश्रौ १, ७, ४,
१८; वैश्रौ ८, ८ : ३; हिश्रौ ५,
१, ४५; ४, ३६; माग २, १, ५;
-का वैश्रौ ९, ४ : ११; -काम्
बौश्रौ ५, ११ : २; वैश्रौ ९, ९ :
३; -के भाश्रौ ७, ६, २; १०,
२१, २; वैश्रौ १२, २१ : ८;
हिश्रौ ७, ३, ३५.

इक्षुशालाका-मन्ध- -न्धेन वैश्रौ
९, ६ : ३.

इक्षु-शाकट-, इक्षु-शाकिन- पावा
५, २, २९.

इक्ष्वाकु^२ - कवः^३ अप १, ७, ६;
-कुषु^४ बौश्रौ २, ५ : १९१;
-कृणाम्^५ अप १, ७, ९.

ऐक्ष्वाक- पा ६, ४, १७४; -कः
शाश्रौ १५, १७, १; २१, १; ऋअ
२, १०, ५६; -कम् शाश्रौ १५,
१८, १; -कस्य शाश्रौ १५, २२,
१; पावा ६, ४, १७४.

ऐक्ष्वाकु^६ - कुः वृदे ५, १४; ७,
८५; -कुम् वृदे ७, ९६; -कोः
वृदे ७, ९९.

✓इक्ष्, इक्ष् पाधा. भ्वा. पर. गतौ.

✓इक्ष्(बधा.)पाधा. भ्वा. पर. गतौ.

इक्ष्यते अप्रा ३, ४, १; इक्ष्यन्ते
अप्रा ३, ३, २१.

इक्ष्यन्ति आपश्रौ १, १६, ११;
वैश्रौ ४, ३ : ७; हिश्रौ १, ४,
५७; या १३, ९११; इक्ष्येत्
निस् १, ७ : ३४१; ऋप्रा १०,
१६; ११, ३१; अप्रा ३, ३, २१;
४, १३.

इक्ष्- -क्षेपु अप्रा ३, ३, १२.

इक्ष्ण- -नम् अप्रा ३, ४, १.

इक्ष्य^७- -क्ष्यः भाशि ४; १२९;
-क्ष्यम् ऋप्रा १, १०२; तैप्रा
१, ४८; -क्ष्यानाम् शौच ४, ७६.

इक्ष्य-ग- -गम् भाशि ८५

इक्ष्य-स्थ- -स्थे भाशि ८८.

इक्षिड^८ - डम् कौस् १६, १९; २५,
३०; ४७, ३; ११६, ६; अशां
१५, ५; २१, २; -डेन कौस् १४,
३०.

इक्षिडा(ड-अ)लंकृत- -तान् कौस्
१४, २८; ४८, ४.

इक्ष्गुदी^९ - (> ऐक्ष्गु- पा.) पाग
४, ३, १६४.

✓इच्छ, इक्ष्^१ पाधा. तुदा. पर. इच्छा-
याम्, इच्छते शाश्रौ ७, ६, ४१;
काश्रौ ९, १२, १११; आपश्रौ
१२, २४, १६; २६, ३१; ७;
बौश्रौ; इच्छति बौश्रौ १४,
२९ : २८; १८, २ : ८; द्राश्रौ;
या ९, २१; पा १, ४, २८;
इच्छन्ते शाश्रौ ७, ४, १३; आपश्रौ
२२, १०, १४; काठश्रौ १५८;
बौश्रौ २, ९ : ५; १०, १० : ४;
१८, २४ : २; हिश्रौ ८, ७,

४७; १७, ४, ३२; इच्छन्ति
आश्रौ ७, ५, २०१; शाश्रौ;
इच्छसि शाश्रौ १२, १८, ४; कौस्
३७, ७; वृदे ७, १४९; ८, १९;
इच्छामि आपश्रौ २४, १३, ३१;
बौश्रौ २, १ : १०१; आमिग १, ५,
२ : १३१; विध १, ४९; ९८, २;
वृदे ८, ३०; इच्छामः लाश्रौ ९,
११, २; इच्छतु आपश्रौ ८, १,
४१; इच्छस्व या ४, २०१;
†इच्छ, > च्छा बौश्रौ १०, २२ :
१६; माश्रौ ६, १, ५, १६;
वाधूश्रौ ४, ९०^२ : ३५; आपमं
१, १०, १; २; बौग १, ६, २३^२;
या ११, ३४; इच्छष्वम् शाश्रौ
१५, १७, ११; इच्छत काश्रौ २५,
१२, १८; वाधूश्रौ ३, ७९ : १६;
†कौस् ७३, १५; १२८, ४; अप
३७, ५, ६; इच्छाम वाधूश्रौ ४,
१९ : ३६१; ऐच्छत वाधूश्रौ ४,
३० : ३; ४; ९४ : ४; ७; ९४^२ : ३;
८; ९४^३ : ३; ७; ९४^४ : ३; ८; ९४^५ :
३; ऐच्छत् शाश्रौ १४, ३०, १;
ऋअ २, १०, ९५; ऐच्छन्त वाधूश्रौ
४, २६ : ३; ऐच्छन् बौश्रौ २५,
१० : ८; वाधूश्रौ ४, १९ : ३४;
३६; २२ : १२; २६ : २२; ८८ :
२; निस् ३, ९ : २९; ऐच्छः ऋप्रा
१४, ५९१; ऐच्छाम ऋअ २, १०,
५३१; इच्छेत आश्रौ २, १६, १७;
आपश्रौ; इच्छेत् आश्रौ २, ३,
१३××; शाश्रौ; हिघ १, १, ११^६;
या १४, १०^२; इच्छेरन् काश्रौ ७,
५, १०; हिश्रौ ८, ७, ५०; द्राश्रौ

a) =समुद्र-विशेष-। बस.। b) =जनपदशब्द-क्षत्रियविशेष-। वैप १ द्र.। c) बहु. < ऐक्ष्वाक-।

d) =ऐक्ष्वाक-। प्र. लोपः डसं. (पा ६, ४, १७४)। e) =सावप्रह-पद-। कर्मणि घञ् प्र.। f) =इक्ष्-।
g) =भोषधि-विशेष-, तदीयतैल-। व्यु. ?। h) =वृक्ष-विशेष-। व्यु. ?। i) पा. पावा ७, २, ४८ पा ७, ३, ७७
परावृष्टः द्र.। j) पाभे. वैप १ परि. ऐच्छाम ऋ १०, ५३, १ टि. द्र.। k) पाभे. पृ ५२६० द्र.।

७,४,१; लाश्री ३,४,१; इच्छेयुः
 वैश्री १५, ३१: १०; द्राश्री
 ९,४,१९; लाश्री ३,८,१०.
 इष्यते बौश्री १९,१: ६; वाधूश्री;
 पावां २,३,६५; ४,१,३९; २,८;
 ६,४, ८२; इष्यन्ते वाधूश्री ४,
 १३: २; ५; इष्येथे वाधूश्री
 ४,१९: ४३.
 इच्छन्- -च्छतः काश्री १०, २,
 ३०××; निस्; -च्छता शांश्री ४,
 ५,१६; कप्र; या १३, १३;
 -च्छताम् कप्र १, ३, ७; अप;
 -च्छति गौध २८, २; -च्छते
 वाध १,३०; -च्छन् शाश्री ४,
 १५,२३; १३,५,७; काश्री; या ७,
 १; -च्छन्तः आश्री १०,५,१२^१;
 ११, ४, ८××; शाश्री; आपमं
 २, १३, ११^१; -च्छन्तम् वृदे ५,
 ७७; -च्छन्तौ वाधूश्री ४, २: ५.
 इच्छन्ती- -न्ती आपमं २, १४,
 १; आमिण्य; या ११, २५;
 ४५; -च्छन्त्याः गौध ४, १०.
 इच्छमान, ना- -नः ऋश्री १, ६,
 १; ३, ७, १३; बौश्री १६, ३०: ६;
 आपमं २, २२, ४^१××; या ९,
 १०; -नाः बौश्री १६, २९; १३;
 आपमं २, ११, ३०^१; कौश्री ५,
 ३, ३१^१; आमिण्यः भाग्य २, २६;
 ७^१; -नानाम् चाश्री १९: १०;
 -नौ काश्रीसं ३०: ९; द्राश्री
 १, ३, १३; लाश्री १, ३, १२.
 इच्छा- पा ३, ३, १०१; -च्छया कप्र

२, १, ११; विध ३८, ७; -च्छायाः
 पावा ३, १, ७; -च्छायाम् शौच
 ३, १८; ४, २९; पा ३, १, ७.
 ऐच्छिक- -कः वाण ६, ३२.
 इच्छा-क्रम- -मेण कप्र ३, १०, १.
 इच्छा-प्रमाण- -गे कप्र २, ५, १६.
 इच्छा (च्छा-अ) मिधान- -नात्
 मीस् १०, २, ५२; -ने पावा ३,
 १, ७.
 इच्छा(च्छा-अ)र्थ- -र्थेभ्यः पा
 ३, ३, १६०; -र्थेषु पा ३, ३,
 १५७.
 इच्छु- -च्छुः कप्र ३, २, २; पा ३, २,
 १६९.
 एष्वै वाधूश्री २, २०: २.
 एष्वय- -व्याः विध ८५, ६७.
 ए(सृ>)प्ती- -प्ती आपश्री १०,
 १२, ५; माश्री २, १, २, २५; वैश्री
 १२, १२: २०, हिश्री १०, २, १४.
 इच्छादक्ष^१ भाग्य २, ७: २६.
 इच्छवादक्ष^१ आपमं २, १६, ११.
 इज्जल^१- पाउभो २, ३, ९९.
 इज्य- , इज्यमान- , इज्या- ✓यज् द.
 ✓इट् पाधा. भ्वा. पर. गतौ.
 इट^१- -टः ऋश्री २, १०, १७१^१; -टस्य
 कौस् ६६, २४^१; -टे कौस् २९,
 ३०.
 इटक^१- -कः बौश्री ४, १, २.
 इटत्^१- > ऐटत्^१- -तम् लाश्री ७,
 ४, १.
 ✓इड्, क्, ल् (वधा.)^१ > इड्, क्,
 ल्^१- ऋश्री १, ५, २३; २,

८, ६; शाश्री १, ७, ४; २, ५, ११;
 आपश्री २, १७, २; बौश्री ३, २:
 ७; ८, १४: ४१; भाश्री २, १६,
 ७; माश्री ५, १, २, ६; वैश्री ६,
 ७: ४; हिश्री २, २, ३१; २१,
 २, २७; ऋश्री २, १, १३^१; शुश्री
 ३, १०१; निध ५, २; ऋश्री ४,
 ४९; शुश्री ३, २३; तैश्री ८, २४.
 इक्ष-पति^१- -तिः वृदे ३, ७१;
 ८, १२७; -तिम् वृदे ५, ३९.
 १इडा, का, ला^१- पाग ४, २, ९०;
 ५, २, ६१; पावाग ८, २, १८;
 -डया आश्री ४, ११, ६^१;
 आपश्री ३, २, २; भाश्री ३, १,
 ९; वैश्री ६, ११: १०; हिश्री
 २, ३, १५; भाग्य १, १३, १८^१;
 -डा ऋश्री १, ७, ७^१; २, ३,
 १२^१; ४, १३, ७; ६, १३, ४^१;
 ८, १४, १८^१; १२, ९, १४^१;
 ऋश्री १, ११, १^१; १२, १^१; ५;
 काश्री ३, ४, १०; ऋश्री ४,
 १०, ५; ७^१; १३, ४; ५, १४, ५; ६,
 ३, ८; ८, ३^१; १२, २७, ११; २४,
 १४, १८; बौश्री २, १७: १२^१××;
 लाश्री ७, ८, १८^१; निस्^१ १, १२:
 २; २१; ३, ११: ४; १२: ६; ४, १:
 ८; ९; २२; अप ४८, ७२^१; वृदे
 १, ११२^१; साश्री २, ६९७^१;
 निध १, १^१; १४^१; या ८, १३;
 -डाः बौश्री ३, ९: १^१; २२,
 ११: १२; वाश्री १, ५, ४, १३^१;
 द्राश्री १५, २, ३^१; लाश्री ५, १०,

a) ऐं इति पाठः? यनि. शोषः? । b) पामे. पृ ५२७ a द्र. । c) ञः इति पाठः? यनि. शोषः ।
 d) पाठः? इड् [लोटि मपु१], अदत्-> -दन्, न इति त्रि-पदः शोषः । e) पाठः? d टि. दिशा शोषः इडः, यद्वा
 इत् भ्वा-दन्, न इति शोषः । f) इज्जल- इति पाउनाट्ट १, १०५ । g) वैप १ द्र. । h) वैप १, ७५५
 f द्र. । i) अर्थः व्यु. च? । j) = साम-विशेष- । वैतु. MW. < इट- इति । k) ऋश्री इति वृदे [३, ४] ।
 l) इड्- इति वृदे., इड्- इति शाश्री. । m) = देवता-विशेष- । n) पामे. वैप १, ७५६ b द्र. । o) = स्तोत्र-
 प्रकार-विशेष- । p) = पृथ्वी- । q) = वाच्- ।
 वैप-प्र-७४

२^०; ७, ७, १^०; -डाम् आश्रौ १, ७, ३; ६; १०, ८××; शाश्रौ १, १०-११, १; १५, ५; ३, १६, २५ ××; काश्रौ ३, ४, ३; ५; ६; ८××; ऋआपश्रौ १, १३, १; ३, १, १; ६××; काठश्रौ ६३; बौश्रौ ३, १८: २४: २८: २५××; माश्रौ १, १२, ३; ३, १, ४; ६××; माश्रौ १, १, ३, २३; ३, ३, ७; ८××; वाश्रौ १, १, ४, १०; २, २, २०; ३, ५, ३ ××; वाधूश्रौ ४, १०८ : ३; ५; वैश्रौ ६, ११ : ३; ७; ८; १२ : ६××; हिश्रौ १, ३, ३६; २, ३, ७; १३ × ×; द्राश्रौ १३, २, ४; लाश्रौ ५, २, ८; ७, ८, १६; वैताश्रौ ३, १५; ९, १३; निसू ३, १२ : ८; आपमं १, ७, २; ऋकाय २८, ५; ४७, १३; माय २, ८, ७; वाय १, २०; वैय २, १: ५; साअ १, ७६; -ढाया: आश्रौ १, १२, २०; २, २, १७; ५××; शाश्रौ; आपश्रौ ६, ५, ७; ५; माश्रौ ६, १०, ५; ५; वाश्रौ १, ५, २, १७; वैश्रौ २, २ : २१; हिश्रौ ३, ७, २८; माय २, २ : ४; कौसू १३८, १०; पा ८, ३, ५४; -ढायाम् आश्रौ २, १९, १२; ४, २, ७; शाश्रौ; -ढायै आपश्रौ १२, २८, ६; बौश्रौ; हिश्रौ २, १७, २; -डे निसू ३, १३ : २७; -ऋडे आश्रौ १, ७, ८; शाश्रौ

१, ११, १; २, १२, ३; काश्रौ ४, १२, ८; १३, ४, १८××; आपश्रौ ४, १०, ४; ६, ३, ८; १५, ९, ३; बौश्रौ ९, ९ : ४; माश्रौ ४, १५, २; ११, ९, ४; माश्रौ ४, ३, २; वैश्रौ ६, १२ : ७; १३, ११ : ४; हिश्रौ ३, ७, १७; ६, ३, २; ६, ५; द्राश्रौ ९, २, ३; लाश्रौ ३, ६, ३; शुश्रौ १, १९३; ४, ८८.

१ ऐड, ल^० - पा ५, २, ६१; -ऋडः आपश्रौ १५, ९, ५; बौश्रौ ९, ९ : ७; माश्रौ ११, ९, ६××; वैश्रौ; -डम् माश्रौ १, ३, ३, ५; द्राश्रौ ८, ४, १३; ९, ३, १३; लाश्रौ ३, ६, ३; ४, ८, १२; ६, ४, ५; ७, ४, १; क्षुसू १, ५: १८: ७: ६: २, ३ : १५; ३, ५ : १०; ९: ९; निसू ६, १३ : ११; ७, १२ : ६; ८, ५ : ३९; -डानि बौश्रौ २४, २८ : ९; वैश्रौ ६, ६ : ६; हिश्रौ २, २, १३; निसू १, १२ : ५; ५, ७ : २१-२३; २५; -डे लाश्रौ ७, ५, १७; -डेषु वैश्रौ २०, ३८ : १; हिश्रौ १५, ८, १.

ऐड-स्व^० - -त्वात् निसू ७, १२ : २०.

ऐड-वाङ्-निधन-
-नेभ्यः लाश्रौ ६, ९, ७.

ऐल-वृद्ध- -दाः शुप्रा ५, ३७.

इड-प्रजस- -जसः बौश्रौ ३,

८ : १९.

इड, ल-संवर्त- -तम् शाश्रौ १७, ५, ६; बौश्रौ १६, २० : २; -ते बौश्रौ १६, २१ : १.

इडा-काम- -मः निसू ७, १२ : २१; १०, २ : १९.

इडा-चमस- -सम् वाश्रौ १, २, ४, ४; काय ४६ : ८; कौसू ८१, ९.

इडा(डा-अ)थकार- -रौ लाश्रौ ७, ८, ५.

इडा, ला-दध- -धः आश्रौ २, १४, ११; बौश्रौ १७, ५२ : १; वैताश्रौ ४३, २३; -धस्य शाश्रौ ३, ९, १; -धे बौश्रौ २३, १७ : २८; -धौ शाश्रौ १४, ५, २.

ऐडादध- -धः आपश्रौ ३, १७, १२; -धे बौध १, ६, ३०.

इडा(डा-आ)धान- -ने बौश्रौ ४, ८ : ३०.

इडानां-संक्षार- -रः निसू ३, १० : ९.

इडा(डा-अ)नुग्रह- -हाय निसू ८, ५ : ४०.

इडा, ला (डा, ला-अ) न्त, न्ता^० - न्तः आपश्रौ ८, ११, ७; बौश्रौ ५, १० : १५; ६, १८ : ३२; ३२ : १३; १२, १७ : २७; २५, १० : ८; माश्रौ ८, १२, १८; ९, १७, ४; वाधूश्रौ ४, ५३ : ४; वैश्रौ ९, २ : १५;

- a) = स्तोम-प्रकार-विशेष-। b) पामे. वैप १, ७५६ f द्र.। c) पामे. वैप १ परि. मा ३, २७ टि. द्र.।
d) १-२ ऐड- [वैप १ द्र.] इत्येतयोत्र समावेशः द्र.। e) = साम-विशेष-। f) वैप १ द्र.। g) तृस. उप. भाप. (<सं/वृत्) = तिरो-भाव- इति। h) वा. क्वि.। i) सप्र. इडाचमसम् <> इडापात्रम् <> चमसम् इति पामे.। j) = (तन्नामधेय-ऋषि-विशेष-दृष्ट- [तु. आपश्रौ. भाष्यम्, C. च.] इष्टययन-विशेष- (तु. अघ-सर्षण-).। व्यु. ?। k) = इडा-दध-। तेनदृष्टीयः अण् प्र. डसं. (पा ४, २, ७)। l) = पात्र-विशेष-। कास.। m) = साम-विशेष-। व्यु. ?। n) विप.। वस.।

१०, १८ : २; १६, १३ : ६;
१९, ६ : १४६; हिश्रौ ५, ३, २९;
निस् ८, ९ : २४; -न्तम् शाश्रौ
८, १, ९; काश्रौ ३, ७, १०; ५,
६, २१; ८, १, १३; १०, ५, ७;
आपश्रौ ३, १४, ६; बौश्रौ २३, २:
१६; २६, ५ : २४; भाश्रौ ३, ८,
१८; वाश्रौ १, ६, ६, २४; वैश्रौ
७, १० : ३; हिश्रौ २, ५, २३;
-न्ता आश्रौ ४, ५, १; शाश्रौ
३, १५, १३; ५, ७, ७; ८, १२,
१४; आपश्रौ १०, ३१, १५;
काठश्रौ ८८; बौश्रौ ८, २१:
१७; २५, २६ : १४; भाश्रौ
१०, २२, १३; माश्रौ २, १, ५,
२१^९; ५, १, ४, ६; वाश्रौ १, ७,
३, १३; वैश्रौ १२, २२ : १२;
१६, २८ : ३; हिश्रौ ७, ३, ६८;
९, ६, २४; वैताश्रौ १३, १५;
२३, २१; -न्ता: वाश्रौ १, १५,
७; बौश्रौ १०, ५६ : १२; ११, २:
२४; १२, ७ : १३; १५, १७ : १३;
२३, १४ : २३; २४; क्षुस् ३, १०:
२७; ११ : १५; -न्ताभ्याम् बौश्रौ
१७, २२ : १०; -न्ताम् आपश्रौ
१३, २४ : १०; -न्ते काश्रौ १५,
४, २१; जैश्रौ २२ : २०; -न्तेन
काठश्रौ १४९; बौश्रौ ८, १२ :
१; १७, २२ : ११; ३७ : ४;
२५, २३ : ४; वैश्रौ १७, १६ :
७; -न्तै: बौश्रौ १७, ३० :
५; ७.

इडान्त-वत् मीस् ९, ४,
४९.

इडा-पथ^९ - येन माश्रौ २,

२, ५, २३.

इडा-पात्र- -त्रम् आपश्रौ १,
१५, ७; बौश्रौ १, ४ : ९; भाश्रौ
१, १६, ३; ३, १, १; वैश्रौ ४, १ :
११; ६, १२ : ५; ११, ८ : १०;
हिश्रौ १, ४, ३६; २, ३, ७; ४,
४, ४५; आमिष्ट ३, ४, २ : १२;
११, ४ : १८; बौपि ३, ३, १२;
वैष्ट ५, ४ : ३६; हिपि ६ : ७^७;
-त्रे आपश्रौ ३, १, ६; वैश्रौ ६,
११ : १.

इडा-पात्री- -न्याम् काश्रौ
६, ८, १३; बौश्रौ ४, ९ : ११;
माश्रौ १, ८, ५, १६; २३.

इडा-प्राशित्रा(त्र-आ)घार-
-रान् काश्रौ १, ८, ४०.

इडा-भक्ति^० - कथय: निस्
९, ५ : २९.

इडा-भक्ष- -क्ष: आपश्रौ ४,
१०, ८; वैताश्रौ १९, १४;
-क्षात् काश्रौ १०, ५, ७; ११.

इडा-भक्ष-विकार- -र:
मीस् १०, ७, १२; १६.

इडा-भाग- -गम् हिश्रौ
३, ५, १७; वैताश्रौ ३, १७.

इडा-भाजन- -ने वाश्रौ १,
१, ३, १२.

इडा(डा-आ)रम्भ(ण>)
या^० - ग्ना निस् ९, १ : ३१;
५ : २१.

इडा-लेप- -पात् वैश्रौ ६,
१२ : २.

इडा,का-वत् - वान् बौश्रौ
३, २२ : १४^१; वृद ३, ४;
पैत्रा ९, २१; ११, १६.

इडा(डा-आ)वदान- -नम्
भाश्रौ ३, १, १; ३; १४; हिश्रौ
२, ३, ८; -नेभ्य: भाश्रौ ३,
३, ४.

इडा-विभक्ति- -क्ति: निस्
३, १० : ५; ७; ५, २ : ७.

इडा-व्यवेत- -तेषु लाश्रौ ७,
७, ५.

इडा-शकल- -लम् वैश्रौ
१५, ३३ : १; हिश्रौ ८, ७, ५९;
९, २, ९.

इडा-संक्षार^९ - >श(र-आ)-
शसूक्तै(क्त-एँ)डस्वर-वार्षाहर-
स्वारकौत्स- -त्सानाम् लाश्रौ
६, ११, ३.

इडा-स्थान- -नेषु लाश्रौ १०,
२, ६.

इडीय- पा ४, २, ९०.

इडो(डा-उ)च्छेषण- -गम्
वाधूश्रौ ३, १८ : ६.

इडोच्छेषण-व्रत^० - -व्रत:
वाधूश्रौ ३, १८ : ६.

इडो(डा-उ)सर^० - -राणि
शुप्रा २, २१.

इडो(डा-उ)पवहन^९ - -नम्
आमिष्ट ३, ५, ७ : १०^९.

इडो(डा-उ)पहव^९ - -व:
माश्रौ ५, २, ८, ३५; ४०; -वात्
माश्रौ २, ३, ७, ११.

इडो(डा-उ)पहवन^९ - -नम्
बौश्रौ १, १८ : १; बौपि १, ६ :
५^९.

इडो(डा-उ)पहूत- -सम्
बौश्रौ ११, १२ : १०; १२, १६ :
११; -तान् बौश्रौ ७, १५ : ८;

a) षस. उप. = पद्धति- । b) पाभे. पृ ५८६ i द्र. । c) विप. । षस. । d) = साम-विक्षेप- ।
e) विप. । पंत. । f) = इडा-पात्र- । उस. उप. करणे < डप > बह् । g) सप्र. षवहनम् <> षहवनम्
इति पाभे. । h) षस. उप. < डप > डे ।

८,४ : २३; १२ : ३५.

इडो (डा-उ)पहृति^० - तौ
जैश्रीका १३६.

इला(ला-अ)न्द, न्दा^० - न्दम्
शाश्रौ १८, २३, ६; लाश्रौ १०,
९, ६; निसू २, २ : २८; ६, ७ :
४९; -न्दस्य लाश्रौ ७, ७, १२;
-न्दा: गो १, २२.

इलान्दा (न्द-अ) नुगान-
वृतीय^० - ये लाश्रौ ७, ८, १२.

इला(ला-अ)अ^० - अम् शांग
३, १०, २१^०.

इला-बिल-शाय^१ - यस्य या
६, १९.

इलो (ला-ओ)दन^० - नम्
जैग २, ९ : २५^०.

इड, ल^१ - ड: बौश्रौ १, १३ : २१;
२२; २४; शुअ २, ४३१; -ळ:
वृदे १, १०७; २, १४७; ३, ४४^०.

इडल, डा/सून^१ - नम् बौश्रौ ४, १:५;
८:२०; ३३; २५, २३ : २; ३२ :
२; आमिगृ ३, ५, २ : १४; बौपि
१, २ : १७; -नस्य बौश्रौ २०,
२९ : १३; -ने^१ आमिगृ २, ५,
८ : १५; ३, ६, १:१७; बौगृ २,
७, १८; ११, ३४; बौपि १, ८ :
१५; -नेन बौश्रौ ११, ५ : १२;
१५, ३१ : ११; हिपि ७ : ७.

इडा- ✓इ ड.

इडा, ला^१ - पाग ४, १, ११२;
-डाया: चाअ २ : १३.

इडेड, ल^० - ०ड^० आपश्रौ २४,
१०, १२; बौश्रौप्र ५२:१; हिश्रौ
२१, ३, १६; -०ल^० आश्रौ १२,
१५, ५; -ड: बौश्रौ १८, ४४:
१; वाधूश्रौ ४, ५३^२:२; गोगृ १,
९, १६; -ल: ऋअ २, १०,
९५.

इडे-वाक्य - क्यम् ऋअ २,
१०, ९५.

इडा-वत्^० आपश्रौ २४, १०, १२;
बौश्रौप्र ५२ : २; हिश्रौ २१, ३,
१६^१०.

इडा-वत्सर^१ - > श्री(य>) या-
-याम् वाश्रौ १, ७, २, ३७.

इण्ड्व^१ - ण्ड्वम् बौश्रौ १७, ३१:५;
३२ : ३; -ण्ड्वानि भागृ २,
२७ : १^०; -ण्ड्वाम्याम् काश्रौ
१६, ५, ३; बौश्रौ १०, १४ : १०;
वैश्रौ १८, ७ : २७^१; -ण्ड्वे
बौश्रौ १७, ३२ : ३.

इण्ड्व-शिक्या (क्य-आ) सन्दी-
न्दीषु काश्रौ १६, ५, २.

इण्व^१ - ण्वानि आपगृ २३, ७^०.

इत- प्रभृ. ✓इ ड.

इतर, रा^० - पाउभो २, ३, ६७^०; पा

२, ३, २९; पाग १, १, २७; -र:
आश्रौ १, ५, ११; ३, १, १७; ५,
५, २०××; काश्रौ; निसू ६,
११ : १३^१; या २, ८; १७;
-रत् आश्रौ १०, ५, २२; शाश्रौ
७, १८, ८; काश्रौ १, २, ३××;
आपश्रौ; पा७, १, २५; -रम् आश्रौ
२, १, ४; ४, ३××; आपश्रौ;
पा ७, १, २६; -रया आपश्रौ
७, १४, १३; भाश्रौ ७, ११,
१६; लाश्रौ ९, २, १२; कौगृ
१, २०, ६; आपगृ ३, ८; या २,
२; -रयो: आश्रौ ८, ९, ३; काश्रौ
१, २, ८××; आपश्रौ; -रस्मान्
आमिगृ २, ५, ३:३४; बौगृ ३, ७,
२३; ऋप्रा १३, ३४; १४, ३२;
-रस्मिन् काश्रौ १५, ३, ३०;
बौश्रौ २६, १८:३××; वाधूश्रौ;
-रस्मै निसू १०, १०:९; -रस्य
आश्रौ ७, ५, ७; शाश्रौ १३, २,
८; ३, ५; काश्रौ; -रस्याम् काश्रौ
३, ६, ६; आश्रौ १३, ४, १५; लाश्रौ
५, ४, २१; निसू ४, १०: ८; -रा
आपश्रौ ३, १०, ४; १४, ७, २२;
बौश्रौ २५, १२ : १४; वाधूश्रौ;
-रा: शाश्रौ १८, २२, ७; काश्रौ
१५, ४, २३; १७, २, १२; आपश्रौ;
-राणि आश्रौ २, १९, ५, ७, ८;

a) षस. उप. <उप✓इ. b) वैप १ द. c) विप.>नाप. (गान-विशेष-). षस. > षस. ।

d) समाहारे द्वस. । e) सपा. इलाअम् <> विराळअम् इति पाभे. । f) षस. > उस. । वैप १, ८३४०, SEY
[१०१] द. । g) मलो. कस. । परल्पम् उसं. (पावा ६, १, ९४) । h) सप्र. बौगृप १९३ : १ गुडो^०
इति, वैगृ ४, १३ : १४ शुडो^० [तु. C.] इति पाभे. । i) = देवता-विशेष- । व्यु. ? । j) अर्थ: व्यु.
च ? । = ऋट- [[इडानां [नडानां] सून- [स्यूति-]] तु. वैप २, ३खं. इट-सून-] । इडा- = कुटका-, वैदली-; उप.
सूना- = फलका- इति भवत्वामी > षस. । k) सप्र. ०डसू <> ०डासू इति पाभे. । l) = ऋषिका-विशेष- । व्यु. ? ।
०ळा इति पाग. । m) सप्र. ऐड <> ऐळ <> ऐद्ध इति पाभे. । n) परस्परं पाभे. । o) सप्र. इडावत् <>
इडवत् इति पाभे. । p) इडवत् इति पाठ: ? यनि. शोभ: (तु. आपश्रौ.) । q) = इडा-वत्सर- (तु. वैप १) ।
r) वैप २, ३खं. द. । s) सप्र. इण्ड्वानि <> इण्वानि इति पाभे. । t) = इण्ड्व- । u) <✓इ इति ।
v) तु. तां १७, १, ८ । इतरान् इति संस्कृतु: टि. ।

काश्रौ ९, २, १४; ९, ५; आपश्रौ;
पावा ३, १, १३; -रात् पा, पावा
७, १, २६; -रान् आश्रौ २,
६, ७; १६; शाश्रौ १८, २४, ७;
काश्रौ; -राभिः आपश्रौ २, २१,
६; बौश्रौ १८, ११:४; ७^५; भाश्रौ;
-राभ्यः पा ५, ३, १४; -राभ्याम्
हिश्रौ १, १, २७; ९, ६, १६;
जैश्रौका; -राम् आश्रौ ५, २०, ४;
शाश्रौ १, १२, ६; काश्रौ; -रासाम्
शाश्रौ १२, २४, ५; काश्रौ
१०, ७, १४; १७, ३, १८××;
काठश्रौ; -रासु वैश्रौ १५, १ :
३; हिश्रौ ८, ६, ६; १३, ५,
१२××; शोध २७९; -रे आश्रौ
१, १३, ७; २, १६, २१××;
शाश्रौ १७, ४, ७; काश्रौ १, ७,
२२××; १६, १, ९^०; आपश्रौ;
-रेण आश्रौ २, ९, ९; काश्रौ ३, ५,
१७; बौश्रौ २१, ८ : १७^३××;
वैश्रौ; पावा १, १, ५६; -रेभ्यः
काश्रौ १०, २, २४; आपश्रौ १४,
२३, १२; १४; बौश्रौ; -रेषाम्
आश्रौ ५, ६, २४; ७, ३, १९;
१०, ९, ६; ११, १, १०; शाश्रौ;
पावा ३, १, ११^०; -रेषु आश्रौ
५, १२, १३; १५, ११××; शाश्रौ;
-रेः आश्रौ ६, १२, ८; आपश्रौ
८, २२, ४; १२, १२, ३; बौश्रौ;
-रौ आश्रौ २, ७, १४; १९,
३३××; आपश्रौ १५, १४, ८;
शाश्रौ; वैश्रौ १३, १६ : १७^०?
इतर-काल- -लेषु वैश्रौ ५, ९ : ३.
इतर-क्षमा-पति^१- -तेः अप ७१,
१५, १०.

इतर-ग्रह^०- -हेभ्यः हिश्रौ १५, ७, ३.
इतर-जन^१- -नान् अत्र ८, १०,
(५^१); -नेभ्यः आश्रौ २, ४,
१३^१; माश्रौ १, ६, १, ४७^१;
गोश्र ४, ८, ४; द्राश्र ३, २, ११.
इतर-तस्र (:) आश्रौ १२, १३, ३^२;
४^२; काश्रौ.
इतर-त्र बौश्रौ २२, ६ : ५^२; बौश्र
१, ६, १७; २, ११, ४९; काश्रु
७, ३२; बौश्रु २ : ८; १३; मीस्र
६, ३, २; ११, ३, ४७.
इतर-था काश्रौ १, ८, २४; काठश्रौ;
ऋषा १३, २९; पावा १, १,
१; २३; ५२; ३, ९; ६२; ६७; ४,
२३^२××.
इतरयो(था-उ) निस्र ६, ३ :
२२.
इतर-न्याय-स्व- -स्वात् मीस्र ११,
३, २९.
इतर-पर्युदास- -सः मीस्र १०, ८,
१५.
इतर-पाण्य (णि-अ) ऋष्ठा(ष्ठ-अ)
न्तर^०- -रेण आश्रु ४, ७, १३.
इतर-प्रतिषेध- -धः मीस्र ११, २,
२६.
इतर-स्थान- -नम् निस्र ९, २ : ९.
इतरा(र-अ)भि- -भौ जैश्र १, २१ :
२०.
इतरा(र-आ)चार्य- -र्यान् पाश्र २,
१२, २.
इतरा(र-अ)र्थ- -र्थम् मीस्र ९, १,
३७.
इतरार्थ-स्व- -स्वात् मीस्र ७, १,
२१; ११, १, ६३.
इतरा(र-अ)र्थ- -र्थम् माश्रौ १, ७,

६, ९; २, ३, १, ११; वैश्रौ १,
९ : २.
इतरा(र-अ)हुति- -तीः आमिश्र
१, १, १ : ४९.
इतरे(र-इ)तर, रा- -रम् कप्र २, ३,
१४; या २, १५; २०; -रयोः
वृदे ७, १५३; -रस्मिन् काश्रौ
७, ५, १०; ९, ३, १०; -रस्य
निस्र ६, ३ : १; -राम् बौश्रौ
२४, २३ : १०; -रेण निस्र १,
११ : २८.
इतरेतर-जन्मन्^१- -न्मानः या
७, ४; -न्मानौ या ११, २३.
इतरेतर-प्रकृति^१- -तयः या ७,
४; -ती या ११, २३.
इतरेतर-याजक-; इतरेतरा(र-अ)
ध्यापक- -काः आपध १, २९,
८; बौध २, १, ४९; हिध १, ७,
६५.
इतरेतरा(र-अ)न्योन्यो (न्य-उ)
पपद^१- -द्वात् पा १, ३, १६.
इतरेतरा(र-आ)श्रय^१- -यम्
पावा १, ३, १; ३, ३, ३; -ये पावा
१, १, ८.
इतरेतराश्रय-स्व- -स्वात्
पावा १, १, १; ३८; २, १, ५१;
३, २, ८४; १०२; ४, १, ८९.
इतरेतरो(र-उ)पदेश- -शः या
१, २.
इतरे-द्युस्र (:) पा, पावा ५, ३, २२.
इतर, रा^१- पाश्र ४, १, १२३; २, ७५.
ऐतर- पा ४, २, ७५.
ऐतरेय^१- पा ४, १, १२३; -यः
साश्र १, १६०; २५८; ३२३;
-यम् आश्रु ३, ४, ४; कौश्र २,

- a) ०रेषाम् इति चौसं. । b) तु. पासि. । c) ए^० इति पाठः ? यनि. शोधः (तु. सपा. आपश्रौ.) ।
d) कस. > षस. । e) कस. उप. = पात्र- । f) नाप. । g) कस. > षस. > षस. । h) विप. । बस. ।
i) विप. । दस. > बस. । j) व्यप. । व्यु. ? । k) = ऋषि-विशेष- [महिदास-], तत्प्रोक्तब्राह्मण-विशेष- ।

५,३; शांठ ४,१०,३; ६, १,१;
अप ४३,४,३५.
ऐतरेय-क^० - के वृदे ५,३; २५;
११०; ६, १७; १०८; ११७;
१२९; ७,७२.
ऐतरेयिन्^० - यिणः आश्रौ १,
३,१२; ३, ६,३; १०, १, १३;
साअ २, ६५६; ८६२.
? इतरानामसंयुता जैश्रौका ६८.
? इतरासैः^० कौस् १०६,७१.
इतस (ः), इति प्रथ. इदम्- द्र.
इतिक^१-(> ऐतिकायन-पा.) पाउना
२,४४; पाग ४,१,९९.
? इतिरिति^० वाधुश्रौ ४,११ : ३.
इतिश^१- पाग ४,१,९९.
ऐतिशायन- पा ४, १, ९९; मीस्
३,४,२४; ६,१,६; -नस्य मीस्
३, २, ४३; -नाः बौश्रौप्र ३ :
६; ४१ : १; -नानाम् बौश्रौप्र
२६ : १.
इतिहास^१- -सः आश्रौ १०, ७, ९;
ऋअ २,८,९१; वृदे ४,४६; अअ
१५,६१; -सम् आश्रौ १०, ७,
९; शाश्रौ १६, १, २४; आमिग्य
२, ६, १:१४; वृदे ३, १५६; ६,
१०७; १०९; ७,७; १५३; या २,
१०; २४; ९, २३; १०, २६; १२,

१०; -सस्य अअ १५, ६१.
ऐतिहासिक- पावा ४, २, ६०;
-काः या २, १६; १२, १;
१०.
इतिहास-पुराण- -णम्^१ शांठ १, २४,
८१; अप १, १५, १; शंघ ११६;
३८; बौध ४, ३, ४; -णानि आग्य
३, ३, १-३; ४, ६, ६; आमिग्य
२, ६, ३ : ४३१^१; ४ : ९; १२;
बोध २, ५, २७; -णाभ्याम् वाध
२७, ६; -णाय^१ हिग्य २, १९, ६;
-णेभ्यः आमिग्य १, २, २ : २६;
†बौग्य ३, १, ८; २, ९; २२; ३४;
४७; ३, ११; ९, ५; †भाग्य ३,
१० : १०; १४ : १४.
इतिहास-पुराण-धर्मशास्त्र- -स्त्राणि
विध ७३, १६.
इतिहास-मङ्गल- -लाः अप ६८,
२, ६२.
इतिहास-मिश्र- -श्रम् या ४, ६;
-श्रेण गोग्य १, ६, ६.
इतिहास-वेद^१- -दः शाश्रौ १६, २,
२४; वैग्य १, २ : १६.
इतिहास-सूक्त- -कम् वृदे ८, ११.
इत्कट- (> ऽटिक-) इकट- टि. द्र.
इत्थ, इत्थम्, इत्था, इत्थात् इदम्- द्र.
इत्थ- √इ द्र.

? इत्थञ्जन^१- नम् कौस् ११६, ७१.
इत्या- √इ द्र.
? इत्याव्रजेयुः^१ शाश्रौ १३, १४, ६.
इत्व(र>)रा^१-(> ऐत्वारयण- पा.)
पाग ४, १, ९९.
इत्त्वरी-, इत्वा √इ द्र.
†इद्^१ आश्रौ १, ११, १३; २, १७,
१५^१; शाश्रौ; भाग्य २, २८ : ८^१;
भाग्य १, २१, २^१; या १, ९६;
४, १९; ११, ४६६; १४, २; १९०.
? इदं नावाख्यास्ता^१ बौश्रौ १८,
४७ : १८.
इदम्^१-
२अ, आ- †अया^१ आश्रौ २, १९,
३२; ८, ३, १; शाश्रौ; आपश्रौ ८,
१६, ५^१; अयोः या ३, २२^१;
†अस्मात् काश्रौ २५, ७, ४०;
आपश्रौ १, ८, ७^१××; माश्रौ २,
५, ५, २१^१; अप्राय २, २^१;
†अस्मिन् आश्रौ १, ९, १××; ३,
१३, १२^१; शाश्रौ ३, ५, ४^१; आपश्रौ
१२, ८, ३^१; बौश्रौ २, ५, २५; वैश्रौ
१५, १० : ६^१; हिश्रौ ८, २, ४१^१;
कौग्य १, १२, ६^१; आमिग्य २,
४, ५ : १८^१; †अस्मै आश्रौ
१, ९, ५; शाश्रौ; †अस्मैऽअस्मै
शाश्रौ १०, ६, १४; १२, ४, ९;

a) = ब्राह्मणग्रन्थ-विशेष- । स्वार्थे प्र. । b) नाप. । णिनिः प्र. (पा ४, ३, १०५) । c) स्वरूपम्
(तु. संस्कृतः टि.)? । विप. (हस्तिन्-) । d) व्यप. । व्यु. ? । e) पाठः ? अतिरिक्तम् इति संस्कृतः शोधः ? । f) वैप १ द्र. ।
g) समाहारे द्रस. । h) णान् इति पाठः ? यनि. शोधः (तु. सपा. बौध.) । i) मलो. कस. । j) पाठः ? (√ वृध >
कर्मणि) * वृधि- (संतान-) + *व्यञ्जन- (भावे < √ व्यञ्ज् [विस्तारे] >) * वृधि-व्यञ्जन- (वस.) > नैप्र.
इध्यञ्जन- (वंश-विस्तार-) इति शोधः (तु. संस्कृतः टि. न्यञ्जन- इति शोधः ?) । k) पाठः ? । अत्या^० इति C.
शोधः । l) इदम् इति पाठः ? यनि. शोधः (तु. सपा. ऋ ५, ५८, ५) । m) पाठे. वैप १, ७६१ d, परि. च द्र. ।
n) पाठः ? ऐत् इति शोधः । पाठे. वैप १, १०२५ l द्र. । o) पाठे. वैप १, ७५९० द्र. । p) पाठः ? (अन्यतमा
कामदुषामधिकृत्येन्द्रो-विष्णुमाह) इयम्, नौ, आ-रक्ष्या, आस्ताम् इति शोधः (तु. मूको.) । q) वैप १ परि. तै १,
७, १२, १ टि. द्र. । r) पाठे. वैप १, ७६६ f द्र. । s) सपा. पै २, ५०, १ तस्मात् इति पाठे. । t) पाठे. वैप १,
७६३० द्र. । u) पाठे. वैप १, ७६४ i द्र. । v) पाठे. पृ २१५ n द्र. । w) पाठः ? *स्मत् इति शोधः
(तु. सपा. शौ ६, २६, ३; बौश्रौ. च) ।

शांठ ६,४,४; ऋस्य आश्रौ १, १०,८; ३,९, ५^४; ४,७,४^७××; आपश्रौ ९,११,२३^०; १६, १८, ७^०; १९, ३, ४^४; माश्रौ १, ८,४, ४^०; ५^०; वैश्रौ १८, १६ : ४^०; लाश्रौ ९, १०, ४^१; आपमं २,१,३^४; आगृ १,१७,१०^४; पागृ २,१,१०^४; आमिगृ ३, १०, ५ : १०^०; हिगृ २,६,१०^४; ऋस्याः ॥आश्रौ १, ७, ३××; ८, ३, २८^१; शाश्रौ १२, २४, २^१; १६,४, ३^१; आपश्रौ ६, २३, १^१; वैताश्रौ ३२, ३१^१; मागृ १,१०,१०^२; २, १८, ४^१; मागृ २,२० : ११^१; ऋस्याम् आश्रौ १, ९, ५; शाश्रौ; आपमं १, ७, १०^१; १२, ६^१; २, २०, ३०^१; कौगृ ३, १५, २^१; शांठ ३, १२, ३^१; ऋस्यै आश्रौ १०, ८, १२^१; १३^१; शाश्रौ १, ५, ९; १६, ४, २^१; आपश्रौ ५, २४, ४^१; लाश्रौ ९, १०, ३^१; वैताश्रौ ३६, ३१^१; आपमं १, १, ३^०; ४, ७^१; आगृ १, १३, ६^१; पागृ १, ५, ११^१;

आमिगृ १, ५, २ : ५०^१; हिगृ १, १९, ७^१; आभिः आश्रौ २, ८, १४^१; आपश्रौ; आपमं २, १९, ४^१; आभ्यः वैश्रौ १२, ६ : १३; माश्रौ; कौसू १३३, ६^१; आभ्याम् आपश्रौ २, २०, ६^१; माश्रौ; आसाम् आश्रौ ५, १, ७; आपश्रौ; आसु द्राश्रौ ७, ३, ४^१; अप १९^२, ५, ९; या ४, २७, ६, २४; उसू २, १९^१; एभिः आश्रौ २, ८, १४^१; शाश्रौ; पा ७, १, ११; एभ्यः आश्रौ ३, १२, २२^१; लाश्रौ; ऋषाम् आश्रौ २, ६, १६; शाश्रौ; आपश्रौ ३, १४, ३^१; वैश्रौ २१, ७ : १०^१; एषु आश्रौ ८, ११, ४^१; शाश्रौ १०, ९, १७^१; आपश्रौ. अयासोमीय^५ -यम् लुसू ३, ११ : ९. अस्यवामीय^५ -यम् अप ४२, २, १०; वाध २६, ६; वृदे ४, ३१. अस्य-हृत्य- (> आस्यहात्य- पा.) पाग ५, २, ६१; ७, ३,

२०^५.

अस्य-हेति^५ - (> आस्यहेतिक^५ - पा.) पाग ७, ३, २०.

२अन,ना- -नया आपश्रौ ३, ११, २^१; बौश्रौ; या १, १९; ५, १३; -नयोः निसू २, ९ : ९××; काशु ७, १७; -नेन आश्रौ १, १३, १××; शाश्रौ.

ऋस्यम् आश्रौ १, ६, १; ८, १४, ४^२; आपश्रौ २, ८, ६××; १४, २७, ७^१; लाश्रौ ९, १०, ४^१; आपमं १, ४, ७^१; २, १, ३^१; आगृ १, १३, ६^१; पागृ १, ५, ११^१; आमिगृ १, ५, २ : ५१^१; हिगृ १, १९, ७^१; अयंयज्ञीय^१ -> ऋ(य-अ)ति- प्रेष- -षः शाश्रौ १३, २४, १८.

ऋतसः(ः) आश्रौ ३, ६, २४^२; शाश्रौ; कागृ २५, ५^१; ३५, १^१; ऋप्रा १०, ३^१.

इतः-प्रदान^१ -नम् बौश्रौ १४, १० : २९^१.

इति^१ आश्रौ १, १, ७; १५; १६××; शाश्रौ; वैताश्रौ १३, ८^१.

इति- -तिः शौच १, ८२; -तिना

- a) पाभे. वैप १, ७७० d द्र. । b) पाभे. वैप १, ७६८ f द्र. । c) पाभे. पृ ४४६ p द्र. । d) पाभे. वैप १, ७६८ d द्र. । e) पाभे. वैप १, ७७० h द्र. । f) पाभे. वैप १, ७७० e द्र. । g) पाभे. वैप १, ७६९ b द्र. । h) पाठः ? अस्याम् इति शोधः (तु. पृ ८ j) । i) पाभे. वैप १, ७७२ i द्र. । j) पाभे. वैप १ परि. अस्याः खि २, ११, १ टि. द्र. । k) पाभे. वैप १, ७७३ c द्र. । l) पाभे. वैप १ परि. अस्ति शौ १४, २, १२ टि. द्र. । m) पाभे. वैप १, ७५८ o द्र. । n) पाभे. वैप १, ७७३ a द्र. । o) पाभे. वैप १ परि. अस्मभ्यम् शौ १४, १, ६२ टि. द्र. । p) सपा. शांठ ३, १३, ५ हिगृ २, १०, ७ दिवा इति पाभे. । q) पाभे. वैप १, ७७६ d द्र. । r) पाभे. वैप १, ७७७ d द्र. । s) एषा इति पाठः ? यनि. शोधः (तु. सपा. तैत्रा १, ४, ६, ५) । t) वैप १, ६७८ m द्र. । u) = साम-विशेष- । < अया सोमः [ऋ ९, ४७, १] । v) = सूक्त-विशेष- । < अस्य वामस्य [ऋ १, १६४, १] । w) अस्यहृत्य- इति पागम. । x) अस्यहेत्वा इति पागम. । y) तदस्यप्रहरणम् इत्यर्थे (तु. पागम.), तदस्यप्रयोजनम् इत्यर्थे (तु. पाका.) प्र. । z) पाभे. वैप १, ७७९ e द्र. । a^१) पाभे. वैप १, ७७९ g द्र. । b^१) पाभे. वैप १, ७७९ a द्र. । c^१) पाभे. वैप १ परि. खि २, ११, १ टि. द्र. । d^१) सपा. शौ ६, ६८, ३ विशिष्टः पाभे. । e^१) = प्रेष- । < अयं यज्ञः [ऋ १, १७७, ४] । f^१) ऋता इति पाठः ? यनि. शोधः (तु. सपा. ऋ १०, ८५, २६) । g^१) पृ २४९ r द्र. । h^१) वैप १, ७८१ g द्र. । i^१) वैप १ द्र. । j^१) शोधः पृ १८९ o द्र. ।

शुप्रा १, ३६; ४, १८; -तेः शुप्रा ४, ९५; उस् ७, १; -तौ शुप्रा ४, ९२; अप्रा ३, १, ३; ४, ३, ४; शौच १, ७२; ८१; ९७; पा १, १, १६.

इति-करण^१ -णः शाश्रौ १, २, २५; पावा १, १, ४४; -णम् उस् ४, १२; ८, १७; शुप्रा १, १५४; नाशि २, ३, ९; -णात् माश्रौ १, ४, १, २४; ऋप्रा १, ५८; -णेन ऋप्रा १, ७५.

इतिकरण-पर-त्व-प्रति-
वेध- -धः पावा १, ४, ६२.

इतिकरण-पर-प्रतिवेध- -धः
पावा १, ४, ८०.

इतिकरणा(ण-आ)दि- -दौ
ऋप्रा २, ५१.

इतिकरणा(ण-अ)न्त- -न्तम्
उस् ८, १४; १६; -न्तेन उस् ८, १५.

इतिकरणा(ण-अ)भ्यस्त^२-
-स्ते ऋत ३, ३, ४.

इति-कर्तव्य-ता- -ता काश्रौसं
३५ : ४; मीस् ७, ४, १.

इतिकर्तव्यत्(ता-अ)र्थ-त्व-
-त्वात् मीस् ३, ३, ११^०.

इति-कारा(र-अ)न्त- -न्तम्
ऋप्रा ११, २९.

इति-पर- -रः शुप्रा १, १४९;
तैप्रा ४, ४; ८, १२.

इति-पूर्व- -र्वेषु ऋप्रा १०, १७.

इति-मध्य^३- -ध्ये शौच ४, ११७.

इति-मात्र^४- -त्रे आश्रौ २, १,
३४.

इति-वत् शुप्रा ३, २०.

इति-ह^५- पा ५, ४, २३; पावाग
५, १, १२४.

ऐतिह^६- -हम् शाश्रौ १७,
१२, ४^१.

ऐतिह्य- पा ५, ४, २३; पावा
५, १, १२४.

इति^७ > इति-प्रभृति- -तयः

माश्रौ २, ४, २, २; ५, २, १०,
४××; वाश्रौ; -ति शाश्रौ

१०, ११, ८; माश्रौ १, ६,
२, ६; ७, ४, ५२××; वैश्रौ;

-तिना वाश्रौ १, ४, ३, १;
३-५; ४, ५; -तिभिः माश्रौ १,

२, २, १; ५; ६, २०××; वाश्रौ;
-तिषु वृदे २, ११५; -तीनि

माश्रौ १, ७, १, १६; २, ७××;
अप ३२, १, १८.

इति-श्रुति- -तेः कप्र ३, ६, २.

इति-संख्या-परिमित- -तम् अप
१, २, २.

इत्य (ति-अ) न्त, न्ता^८- -न्तः
आश्रौ ५, २०, ८; ६, १, ३; गौपि;

-न्तम् आश्रौ ५, १, १५; ७, ४,
१०; माश्रौ; -न्ताः वैताश्रौ ३३,

१६; -न्तात् वैश्रौ १२, १९ :
९; -न्तानि माश्रौ १, ७, २, ३;

-न्ताभिः वैताश्रौ १६, ५; -न्तेन
माश्रौ १, ९, १०; ११, १३××;

माश्रौ; -न्तैः आम्रिप २, ४, ६ :
३५; काग २५, १६; वैगृ; -न्तौ

माश्रौ २, २, २, ३१.

इत्य (ति-अ) वधिक^९- -कम्
जैश्रौका ३५.

इत्या (ति-आ) दि^{१०}- -दयः काग
२५, २६; माग १, ११, १४; शुअ;

-दि काठश्रौ १५; ८६××; बौश्रौ;

-दिः ऋप्रा ५, १२; ९, २७;

-दिना वैश्रौ ११, २ : १४; वैगृ;

-दिभिः काश्रौ १५, ७, ८; वैश्रौ;

-दिषु अअ ११, ३(२); ऋप्रा
८, २३; -दी ऋप्रा ५, १३; -दौ

पा ६, १, ११९.

इत्यादि-तन्नुम(त् >) ती^{११}-
-तीः वैगृ ६, १८ : १.

इत्यादि-पञ्चन्- -ञ्च ऋअ २,
८, ३१.

इत्यादि-पाशुक^{१२}- -केन वैश्रौ
१६, २० : ९^१.

इत्यादि-ब्राह्मणो(ण-उ)क्त-
-क्तानि वैश्रौ २०, ७ : ५.

इत्यादि-भूत-दैव (त्य >)
त्या- -त्याः वैगृ २, २ : ८.

इत्यादि-मन्त्र- -न्त्रैः
जैश्रौका ७८.

इत्यादि-रुद्र-दैव (त्य >)
त्या- -त्ये वैगृ २, २ : ६.

इत्यादि-वाशिष्ठ- -ष्ठम् कप्र
३, ९, १६.

इत्यादि-श्रुति- -तिः वैध १,
१, २.

इत्यादि-षष्- -षष्टिभिः
आम्रिप ३, ११, ३ : ११.

इत्यादि-सप्तर्षि-दैव (त्य >)
त्या- -त्याः वैगृ २, २ : ७.

इत्यादि-सूक्त- -क्तानि वैध
२, १३, ६.

इत्यादि-स्वाध्याय- -यम्
वैश्रौ १, ४ : २.

इत्यादि(ति-आ)दिक, का- -कान्
जैश्रौका ६७; -काम् वृदे ३,

a) कस. । उप. कर्मणि क्युट् (तु. कैयटः) । b) द्वस. । c) षथित्वात् इति प्रयासं. । d) विप. ।
वस. । e) निपातसमाहारः । f) = ऐतिह्य- । अम् प्र. उसं. (पावा ५, १, १२४) । g) वैप इ द्व. । h) कसः
उप. = ऋच्- । i) कस. उप. = कर्म-विशेष- । j) सप्र. आपश्रौ १३, १६, १२ एतदादि पाशुकं कर्म इति पाभे. ।

१५१; -कैः वैगृ २, ६ : ८; ३, २२ : ११.

इत्या(ति-आ)घ,घा^१-घा वृदे ४,८३; -घाः जैश्रौका १००; वृदे ६, ७; ८; -घैः वैश्रौ १२, १४ : २; १६ : १६; १३, ५ : ६; अप १९^१, ३, १; वैध ३, ९, ४.

इत्यु(ति-उ)क्त-क्तः वैगृ १, ९ : १९; वृदे ५, १०१; -क्तम् वैश्रौ १४, १८ : ४; वौपि ३, ६, १; -क्ते वैगृ १, ९ : १८.

इत्युक्त-त्व- -स्वात् वौपि ३, ६, ४.

इत्यु(ति-उ)प(धा>)घ^१-घम् ऋप्रा २, ६१.

इत्यु(ति-ऋ)च्- -स्यूचः वैगृ २, २ : १०.

इत्ये(ति-ए)तद्-भादि-प्रत्या-यना(न-अ)न्त^१- -न्तान् वैश्रौ १६, २१ : १०.

इत्ये (ति-ए) वम्-भादि-सं-भार^०- -रान् आमिगृ २, ७, ११ : ३.

†इत्थ^१ आश्रौ ८, ३, २०; शाश्रौ १२, २३, १^१.

?†इत्थ-फल^१- -लस्य शाश्रौ १२, २४, २^१.

इत्थम्^१ आपश्रौ १०, १२, १२^१; वौश्रौ १५, ३० : २३^१; १७, ४५ : ५; वाधूश्रौ; पा २, ४, २७; ५, ३, ४; २४; पावा ५, ३, ५^१; इत्थम्^१ इत्थम् वाधूश्रौ ४, ७५ : १८;

इत्थाइम् वौश्रौ १५, ३० : २४^१; इत्थाइम्^१इत्थाइम् वाधूश्रौ ४, १०८ : १५; ११९.

इत्थं-विद्^१- -वित् वाधूश्रौ ३, ४ : ६; ११ : ३; -विदः वाधूश्रौ ३, २२ : १२; २६ : ५; ४, ३७ : १८.

इत्थं-कारम् पा ३, ४, २७.

इत्थं-गोत्र^१- -त्रः वौश्रौ ६, ५ : २७^१; -त्राय कौगृ १, २, २.

इत्थं-नामधेय^१- -याय कौगृ ५, २, १३.

इत्थं-भूत- -तः वौध २, १, ३५; -तस्य पावा २, ३, २१; -तेन पा ६, २, १४९.

इत्थंभूत-लक्षण- -णे पा, पावा २, ३, २१.

†इत्था^१ आश्रौ ४, ७, ४; ६, ७, ९××; शाश्रौ; निघ ३, १०; ४, २; या ४, २५; ५, ५^१; ६, ३; ११, ८; ३७; इत्थाइत्था शाश्रौ १२, ५, ११.

इत्थात्^१ आपश्रौ १५, १९, ४; वौश्रौ ९, १८ : १७; आश्रौ ११, १९, १३.

इदम्- पाउ ४, १५७; -दम् आश्रौ १, २, १^१; ३, १४××; शाश्रौ ४, १३, १^१; १७, १४, १४^१; †काश्रौ १३, ३, २६^१; १९, ३, २६^१; †आपश्रौ ४, १४, १^१; १९, ८, १२^१; माश्रौ ५, २, ११, ३^१; †शाश्रौ ११, ३, १८^१; लाश्रौ ४, ३, १८^१; †मागृ १, १०, १०^१; ११,

२३^१; पा २, २, २७; ४, ३, १२०; ६, २, १६२; ३, ९०; ७, १, ११; पाग १, १, २७; पावा ४, ३, १२०; -दम्^१-दम् आश्रौ ६, १, २; -दमः पा २, ४, ३२; पावा ४, ३, १२०; ५, ३, १; २२; -दाइम् शौच १, १०५^१.

इदम्^० पा ६, २, १६२.

√^१इदंय^१>इदंयु- -युः निघ ४, ३^१; या ६, ३१^१.

इदं-युग- (>ऐदंयुगीन- पा.) पाग ४, ४, ९९.

?इदंविष्णुकम- -मात् आमिगृ १, ६, ३ : ३१.

इदं-शब्द- -ब्दः आपश्रौ २४, ३, २२.

इदं-करण- -णाल या १०, ८.

इदं-दर्शन- -नात् या १०, ८.

इदम्-भादि- -दि आश्रौ ४, २, ७; ५, ५; ५, ५, ५; -दिषु आश्रौ ४, २, ६; १२, ७.

इदम्-आद्य^१- -द्यम् अत्र ८, २.

°इदं-पदाद्य (दि-अ) प्-पुम्-रै-दिक्- -द्युभ्यः पा ६, १, १७१.

इदं-पर- (>ऐदंपर्य- पा.) पाग ५, १, १२४.

इदं-प्रथम- पा ६, २, १६२.

इदं-प्रभृति-कर्मन्^१- -र्मणाम् आश्रौ ४, १, २३.

इदं-मधु^१- -धुम् आपश्रौ २१, १९, १८; वौश्रौ १६, २२ : ८.

†इदा^१ आश्रौ ७, ४, ४^१; शाश्रौ १८, १०, १०; वैताश्रौ ३९, ३; १८;

a) विप.। बस.। b) विप.। कस.>बस.>कप.>बस.। c) कस.>बस.>क.। d) वैप १ द्र.। e) वैतु. <एतद्- इति। f) उप. <√विद् [ज्ञाने]। g) वैप २, ३३. द्र.। h) पाभे. वैप १, ७८५० द्र.। i) एकतरत्र इदं मधु इत्यस्य स्थाने सपा. आपश्रौ २१, २०, ४ हिस्लु हिस्लु इति पाभे.। j) पाभे. वैप १ परि. अयम् खि २, ११, १ टि. द्र.। k) वज्जन्तः माथा. (द्र. या ६, ३१; वैतु. पावा ३, १, ८)। l) बस.>कस.। m) पाभे. वैप १, ७८७. ङ.।

४०,८; ४२, ५; निघ ३, २८;
पा ५, ३, २०.

इदानीम्^a आपश्रौ १९, १२, १३[†];
बौश्रौ १९, ३ : ३३[†]; माश्रौ;
निघ ३, २८[†]; या ६, ११; ११,
४४; पा ५, ३, १८.

इदानीं-तन-नेषु बौश्रौ २६,
२४:१८.

इम,मा-^aनम् आपश्रौ १, ७-८,
७××; आपश्रौ १, १२, १७××;
१५, ४, ४^b; बौश्रौ; वैश्रौ^b १३,
५:८; २०, १३ : ६; हिश्रौ २४,
१, २१^b; आपमं^c १, ५, १; ६;
११; २, २, २; आगृ १, ७, ७^c;
पागृ १, ७, १^c; कागृ २५, २८^c;
हिगृ १^c, ४, १; १९, ८; गोगृ २,
२, ४^c; द्रागृ १, ३, १९^c; -मा
आश्रौ २, १२, ५[†]; ४, ३, २; शाश्रौ;
पावा २, ४, ३२; -मा: आश्रौ २,
७, ७^d; ८, ३××; शाश्रौ; आपश्रौ
२१, २०, ३^e; हिश्रौ १६, ६, ४१^e;
-^aमान् आपश्रौ २, ५, २; १२;
आपश्रौ; माश्रौ ४, १, २३^b; -मानि
लुसू ३, २: २४; निस्; -माम्
आश्रौ २, २०, ४[†]××; शाश्रौ
३, १८, ४[†]; आपश्रौ; हिगृ २,
१०, ६[†]; या ९, ४१[†]; -^aमे
आश्रौ २, १४, १२××; ७, ८,
२^b; शाश्रौ; आपमं २, १२, ६[†];
आगृ ३, ६, ८[†]; मागृ १, ३, १[†];

हिगृ २, ३, १०[†]; कौस् ४६,
८[†]; -^aमो(मा-उ) आश्रौ २, १,
३०; आपश्रौ ६, ३१, ४; -मौ
^aआपश्रौ १, ६, १०; १४, ६;
बौश्रौ.

^aइम-था^a या ३, १६[†]; शुप्रा ५,
१२; पा ५, ३, १११.

इयत्^a-यत् शाश्रौ १४, २२, २१;
काश्रौ; -यति बौश्रौ २, १७:
२३[†]; वैश्रौ १, १२ : १४[†];
आपश्रु ६, १३; बौश्रु १ : ७;
हिश्रु २, ४३; -यत्नयः चाश्रु ३०:
४[†]; -यन्तः ऋप्रा १२, २६;
-यन्तम् बौश्रौ २४, २४ : १५;
-यान् आपश्रौ १, ६, १०[†];
काश्रौसं; -यान्ति^a ऋप्रा ९,
५२[†].

इयती-^aती काश्रौ २६, १, ८;
आपश्रौ ५, ९, १०; १५, २, १;
बौश्रौ ९, २ : १४; माश्रौ ५, ५,
९; ११, २, १; माश्रौ १, ५, २, १२;
४, १, ११; वाश्रौ १, ४, २, २; वैश्रौ
१, ९ : ९; १३, २ : १; हिश्रौ ३,
३, ३१; २४, १, १०; शुश्रु ४,
७५; -ती: बौश्रौ २४, २५ : ५;
वैश्रौ ५, १ : ४; जैश्रौ २० : २[†];
-तीम् बौश्रौ २४, २४ : ९.

^aइयम्^a आश्रौ ४, ३, २××; काश्रौ;
आपमं १, ४, ७[†]; आगृ १, १३,
६[†]; पागृ १, ५, ११[†]; आम्रिगृ

१, ५, २ : ५१[†]; हिगृ १, १९, ७[†];
-याइम् शौच १, १०५.

^aइह^a, > हा आश्रौ १, ४, ९; १०,
५; २, ९, १०; ४, १२, २^b××;
शाश्रौ; वैताश्रौ २, २७[†]; आपमं
२, ३, १[†]; पागृ १, ८, १०[†];
हिगृ १, ५, १[†]; ७, ११[†]; १३,
१९[†]; कौस् ५६, १४[†]; इहइह
आश्रौ २, १६, ११; ७, ५, २३;
बौश्रौ १९, १० : १३; ऋअ २,
३, ६०; या १०, २१; १२, ३;
याशि २, ६१; इहो(ह-उ) हिश्रौ
६, ५, १४[†].

ऐहिक-कम् वैगृ ५, १ : ४.

इह-कार^a-रः लाश्रौ ७, ८, ५;
-रे लाश्रौ ७, ८, १२; -रौ लाश्रौ
७, ८, ९.

इहकारा(र-अ)न्त^a-न्ते
लाश्रौ ७, २, ७.

इह-द्विती(य >)या-, ^aह-
पञ्चमी- पा, पाग २, १, ७२.

इह-पूर्व^a-र्वम् शुप्रा २, १४.

^aइह-मनस्^a-नसः आपश्रौ ३,
१०, २; माश्रौ १, ३, ५, १४;
वाश्रौ १, ३, ७, १३; हिश्रौ २, ५,
४४.

इह-लोक- (> ऐहलौकिक-
पा.) पाग ७, ३, २०.

इह-वत्-वतः लुसू ३, १० :
१८.

a) वैप १ द्र. । b) पामे. वैप १, ७८८ j द्र. । c) पामे. वैप १, १०२५ j द्र. । d) शोषः वैप १
परि. इमाः मै १, १०, ३ टि. द्र. । e) सपा. वाश्रौ ३, २, ५, ४३ वैताश्रौ ३४, ९ एता इति, काश्रौ १३, ३, २६ तकाः
इति च पामे. । f) पामे. वैप १, ७९२ g द्र. । g) पामे. वैप १, ७२७ m द्र. । h) पामे. वैप १, ७८० d द्र. ।
i) पामे. वैप १ परि. स्ताम् शौ २, १०, १ टि. द्र. । j) पामे. वैप १ पुनः शौ ७, ६७, १ टि. द्र. । k) पामे.
वैप १, ७९४. f द्र. । l) पामे. वैप १ परि. खि २, १, १ टि. द्र. । m) पा ५, ३, ३, ११ द्र. । n) पामे. वैप १
परि. अधि मै ३, १६, ४ टि. द्र. । o) सपा. मंत्रा १, ६, १४ अयम् इति पामे. । p) पामे. वैप १ परि.
अधि शौ २०, १२५, १२ टि. द्र. । q) पामे. वैप १, १०१२ h द्र. । r) इह अिताः इति पाठस्य स्थाने सपा.
आपमं २, ५, २२ समाहिताः इति पामे. । s) = निघन-विशेष- । t) विप. । बस. ।

इहवद्-वामदेव्य^० - च्यम्
लाश्रौ ७, २, १; ८, ५; लुस्
३; १० : २३; -च्ये लाश्रौ ७,
८, ९.

इहवद्-वासिष्ठ^० - छम् निस्
५, १ : २०.

इह-स्थान^१ - नम् या ७, २३.

इहेह-मातृ^० - तरा या १०,
२११.

ई-इअ^० - पावा ६, ३, ९०; -अम्^१
शंष ११६ : ५२; -फक्ष्वासः^१
बौश्रौ १०, ५३ : ६^२; माश्रौ ६,
२, ५, २३; वाश्रौ २, २, ३,
२५.

ई-इश^० - पा ६, ३, ९०; -इक्^१
आपश्रौ १७, १६, १५; -फइक्^१
आपश्रौ १८, १२, १२; बौश्रौ
१०, ५३ : १; ८; माश्रौ ६, २,
५, २३; वाश्रौ २, २, ३, २५;
वैश्रौ १९, ६ : १०५; हिश्रौ १२,
५, २८; शुप्रा ५, ३७.

ईइक्-प्रदर्शन^० - नम् अप ७०^२,
१५, ५.

ईइगयणा हिश्रौ २१, २, ३४.

ई-इश^० - पा ६, ३, ९०; -शः कप्र
१, १, १०; विध ९३, १२; -शम्
काण्ड ४१ : १३; वृदे १, ५९;
शैशि १२२; नाशि १, ४, ६; -शे
आपमं २, १८, ४७; या १०,
१५.

ईइश-क^० - कः अप ६८, ४,
४.

इदा, इदानीम् इदम्- द.

इदा-वत्सर^० - रः वाधूश्रौ ३, १७ :
५; अप १, १५, १; ४६, ७, ५;
शुप्रा ५, ३२१; -फराय माश्रौ १,
६, ४, २१; वाश्रौ १, ५, ५, ७^१;
वैताश्रौ ८, ५; पाण्ड ३, २, २^१;
जैग २, ३ : ५^२; कौस् ४२, १५;
१७^१; ६८, ३५; अप्राय २, ४;
अप ३७, ८, २; १७, १; अअ
६, ५५^१; अप्रा ३, ४, १^१; -फरे
आपश्रौ १६, ३१, १; वैश्रौ १८,
२ : ४९; हिश्रौ ११, ८, ४;
-रेभ्यः वैग २, १२ : ११.

फइदावत्सरी(ण>)णा^० - णाम्
आपश्रौ ८, १२, ५; बौश्रौ ५, १७ :
२१; १४, ३० : ५; भाश्रौ ८,
१४, ७; ९; वैश्रौ ९, ३ : १७;
हिश्रौ ५, ३, ४७.

फइदावत्सरी(य>)या^० - या
माश्रौ १, ६, ४, २१; वाश्रौ १, ५,
५, ७; -याम् माश्रौ १, ७, ७,
१३.

इदाह इदाहरम्^१ माश्रौ १, ६, ४,
२११.

फइदु-वत्सर^० - राय वैग ४, २ : ६^१;
-रे आपश्रौ १६, ३१, १; वैश्रौ
१८, २ : ४९; हिश्रौ ११, ८, ४;
-रेभ्यः वैग २, १२ : १२.

इदा^१ पाग १, १, ३७.

इदावा > इध्, न्ध < द.

इद-वत्सर^० - रः वाधूश्रौ ३, १७ :
६; -राय पाण्ड ३, २, २^१; -फरे
आपश्रौ १६, ३१, १; वैश्रौ १८,
२० : ४९; हिश्रौ ११, ८, ४.

> इध्, न्ध^१ पाधा. रुधा. आत्म.दीप्तौ.
फइद^१ आग १, १०, १२; आग्निग
१, १, १ : ४३; ५, १ : ३४.

इन्दे, इन्धे बौश्रौ १७, ४९ : ७^१;
वाधूश्रौ ३, १८ : २; वैश्रौ १, ६ :
१८; हिश्रौ ६, ५, ९; या १०,
८; इन्द्रि अप ४८, २०^११^१;
इन्धते आश्रौ २, ९, १४^१; बौश्रौ
२, १५ : १८; माश्रौ १, ५, २,
१; फइन्द्रि^१ भाग १, ४ : ५;
हिग १, २, ११; जैग १, ३ : ११;
इन्धीत शाश्रौ १३, २९, २८;
काश्रौ २४, ६, ३१; आपश्रौ २३,
१३, १२; भाश्रौ ५, ४, ३; माश्रौ
१, ५, १, २५; ३, ८, ६; वाश्रौ १,
४, १, १६; हिश्रौ १८, ४, ४८;
लाश्रौ १०, १८, १३; शाण्ड; पावा
६, १, १५७; इधीमहि अअ १८,
११^१; इन्धीमहि^१ कौस् ४०,
१३१.

फइधे वैताश्रौ ५, १४; आपमं २,
११, २३.

फइध्यस्व आग १, १०, १२;
आग्निग १, १, १ : ४३; ५, १ :
३४; हिग १, २, ११; जैग १;
३ : ११.

इन्धयेत् वैग ४, १ : ४.

इद- फइदः वैश्रौ १, १४ : ५,
आपमं २, ११, २४; बौध २, ६,
३३; -फइदम् या १०, २११^१;
-इ आपध २, २९, ७; हिध २,
६, २०.

इद^१ -> इद - -इद वैध ४, ८,

a) = साम-विशेष-। b) विप.। बस.। c) वैप १ द्र.। d) = मरुद्-विशेष-। e) स्वार्थे कः प्र.। f) पाभे. वैप १, ८०१ ० द्र.। g) विप.। तेननिर्गुनीयः ख > ईनः प्र. उस्. (पा ५, १, ९२)। h) पाठः? संस्कृतेः टि. इदा, अहः, इध्, आहारम् (= आहारम्?) इति चतुष्पदच्छेदः?। सपा. काठ १३, १५ एना, अहः, इदम् अहः इति चतुष्पदः पाभे.। i) = अहः। j) पा १, २, ६ पावा १, २, ६; ६, १, १५७ पराशुष्टः द्र.। k) सपा. इद < > इन्द्रि इति पाभे.। l) पाभे. वैप १, ८०१ ० द्र.। m) = ऋषि-विशेष-। धा. अर्थः?।

१०^a.

इद्ध-वत् वैध ४, ८, १०^b.

इद्ध्वा आपृ १, १२; भागृ ३, १६ :
२; हिपि.

इधान- नः आपृमं २, ११, २७^क.

इध्म^c- पाठ १, १४५; -ध्मः आश्रौ

३, १४, १०; ९, ७, ७; शाश्रौ १४,

२२, १४; काश्रौ; निघ ५, २^क;

या ८, ५^क; -ध्मम् आश्रौ १,

१, ५; २, ६, १२; शाश्रौ; हिश्रौ २,

१, ३^d; अश्र १०, ९^क!^e; -ध्मयोः

शाश्रौ ३, १४, ११; बौश्रौ २५,

१ : २४; -ध्मस्य शाश्रौ ४,

१२, १०^क; आपृश्रौ १, १६, १;

४, ११, ५; बौश्रौ १३, १८ :

१२; २०, ३ : १२; भाश्रौ ४,

१७, २^क; माश्रौ १, ३, १, २;

वाश्रौ ३, ३, १, ४९; ऋश्रौ ६,

३, ८; ४, १८; आमिष्ट १, ६, १ :

२८; कप्र १, ८, १९; -ध्माः

कौसू ८०, २९; अपृ २३, ६, २;

४०, ३, ४^क; -ध्मात् काश्रौ २,

७, २५; ३, १, १; बौश्रौ १, १५ :

१; ४, ६ : १; भाश्रौ ८, १५,

११; वाश्रौ १, ३, ३, १५; वैश्रौ

६, १ : १; ९, ४ : ९; आमिष्ट

१, ६, १ : २६; -ध्मान् आपृश्रौ

६, २, २; ३; बौश्रौ ९, १३ : १;

१२, ४ : २; भाश्रौ ६, ८, १;

वैश्रौ १, १२ : १; २, १ : १३;

हिश्रौ १३, ३, ३६^क; भागृ; -ध्मानि

बौश्रौ २३, ७ : २१; -ध्माभ्याम्

काश्रौ ५, ४, २; -ध्मे आश्रौ १,

४, ९; आपृश्रौ ११, १६, ५; १६,

२०, ४; काठश्रौ ३; १२; बौश्रौ

१३, १३ : ४; २२ : ११; भाश्रौ

१०, २१, २; माश्रौ २, २, २, ३;

५, १, ८, ८; वाधूश्रौ ४, ८७ : ८;

वाश्रौ २, १, ५, १०; ११; वैश्रौ

१२, २१ : ९; १४, १४ : ३;

हिश्रौ ४, २, २४; ७, ३, ३६;

-ध्मेन शाश्रौ ४, ६, १४; काश्रौ

४, ९, ८; ६, २, ३; आपृश्रौ १२,

३, ५; १९, १९, ५; बौश्रौ १३,

१३ : ४^क; हिश्रौ २२, ३, ३;

बुदे ३, ५; -ध्मौ बौश्रौ ५, ६ :

१; ७ : २; भाश्रौ ८, ५, ३; ६, ९.

इध्म-काष्ठ- -छानि आपृश्रौ २,

१२, ७; १४, १; हिश्रौ २, १, ६;

२७.

इध्म-चतुष्टय- -यम् काश्रौ ८,

७, ५.

इध्म-चित्ति- -तिम् आगृ ४, २,

१४.

इध्म-जाति- > °तीय- -यम्

कप्र २, ५, १४.

इध्म-दारु- -रु माश्रौ १, २,

६, १०, २, २, १, २७; -रुभिः

माश्रौ १, ७, ५, १७.

इध्म-परिवासन- -नानि माश्रौ

१, ३, ५, १२; वाश्रौ १, ३, ७, १२.

इध्म-पूर्वा (र्व-अ) ध्म- -ध्मम्

काश्रौ ४, ९, १५.

इध्म-प्रवश्चन- -नम् बौश्रौ १,

४ : ११; आमिष्ट १, ७, ३ : २;

४०; -नानि आपृश्रौ १, ६, ३;

३, ९, १२; बौश्रौ १, २० : २२;

भाश्रौ १, ५, १५; ३, ९, ४; वैश्रौ

७, १० : ६; हिश्रौ १, २, ७६; २,

५, २६; -नैः वैश्रौ ३, ५ : ६.

इध्म-प्रैवा(ष-आ)दि- -दि काश्रौ

६, ४, १.

इध्म-प्रोक्षणा (ण-आ) दि- -दि

काश्रौ ८, ७, १२; ९, १, ३.

इध्म-वाह- -हः ऋश्र २, ९, २६^क;

-हौ बौश्रौ १७, १९ : ६^क.

इध्मवाह- -०ह आश्रौ

१२, १५, ३^क; आपृश्रौ २४,

१०, १०; बौश्रौप्र ४९ : ५; हिश्रौ

२१, ३, १५; वैध ४, ८, १; -हम्

लाश्रौ ६, १२, १४; ७, २, १; निस्

९, ११ : २२; -हे लाश्रौ ७, २, ७.

इध्मवाह-वत् आपृश्रौ २४,

१०, १०; बौश्रौप्र ४९ : ६;

हिश्रौ २१, ३, १५; वैध ४, ८, १.

इध्म-शकल- -लम् काश्रौ ३, २,

५; माश्रौ २, ४, १, १८; -लान्

माश्रौ २, ३, ६, १७.

इध्म-शेष- -षम्^d आपृश्रौ २, १२,

६; भाश्रौ २, १२, ३; वैश्रौ ६,

१ : ६.

इध्म-सनहन- -नम् भाश्रौ ४,

१७, ३; माश्रौ १, ३, १, २;

आमिष्ट १, ७, ३ : ३८; -नानि

आश्रौ १, ४, १३; काश्रौ ३, २,

३; आपृश्रौ २, १५, १; २; ३, ४,

a) पाभे. पृ ५८८ m द्र. । b) पाभे. पृ ५८८ O द्र. । c) = इन्धन-, सप्तदशेन्धन-समूह- ।

वैष १ द्र. । d) सप्र. इध्मम् <> इध्मशेषम् इति पाभे. । e) °ध्म इति पाठः ? यनि. शोधः (तु.

शौ १०, ६, ३५) । f) षस. उप. = शकल- । g) षस. > कस. । h) = ऋषि-विशेष । उस. ।

i) = यज्ञ-परिकर्मिन् । सप्र. तैत्रा ३, १२, ९, ६ इध्मम्...आ-वहताम् इति पाभे. । j) = साम-विशेष- [लाश्रौ.

निस्], = ऋषि-विशेष- । तेनदृष्टीयस् तस्यापत्यीयश्च अण् प्र. । k) इध्म° इति पाठः ? यनि. शोधः ।

l) नाप. । कास. ।

८; २४, १२, ९; बौश्रौ १, १५ :
 ९; २६; १९ : ७; २०, १० :
 ७; भाश्रौ २, १५, २; वाश्रौ १,
 १, १, ४९; वैश्रौ ६, २ : ४; ४ :
 ३; ७, ४ : ३; हिश्रौ २, १, १०;
 ४०; -नैः आपश्रौ ४, ११, ६;
 भाश्रौ ४, १७, ३; माश्रौ १, ४,
 २, १३; वाश्रौ १, १, ३, १८;
 हिश्रौ ६, ३, ९^२; -नैः काश्रौ
 ३, १, १३; आपश्रौ २, १३, १;
 बौश्रौ २, १९ : ३; भाश्रौ २,
 १२, ८; ३, ४, ७; वाश्रौ १, ३, ४,
 ५^२; ५, १६; वैश्रौ ७, ४ : १;
 हिश्रौ २, ३, ४७.
 इध्म-स्थान- -ने काश्रौ ५, ६, ६.
 इध्म-हस्त- -स्तः वैश्रौ २, १ :
 १२.
 इध्म-हार- -रः वैश्रौ १, १६ : ३.
 इध्मा(ध्म-आ)दि- -दीन् वैश्रु
 ४, १ : ४.
 इध्मा(ध्म-अ)न्त- -न्तम् बौश्रौ
 ३, ३१ : १२.
 इध्मा-बर्हिस्^०- पाग २, ४, १४;
 -र्हिः^० काश्रौ २, ६, ३६; ८, २,
 २३; आपश्रौ; -र्हिषः^० आपश्रौ
 ३, १९, ३; ८, १०, ४; बौश्रौ
 २०, १० : ३६; २७, २ : १०;
 हिश्रौ २, ८, १४; ५, ३, १३; ९,
 ५, ८; १२, ५, २०; -र्हिषी
 आपश्रौ ८, ५, २७; बौश्रौ ५, ५:
 ३१; ३३; भाश्रौ १, ६, १; २, ३,
 १९; माश्रौ १, ७, ३, ५; वैश्रौ
 १०, ६ : ८; -र्हिषोः काश्रौ २,
 २, ९; बौश्रौ २०, २ : १२; ९ :
 ११; २१, १४ : १४; २६, १२ :

१८; आश्रु १, १०, ३.
 इध्माबर्हिः-प्रोक्षणी- -णीः
 बौश्रौ २४, ३६ : ७.
 इध्माबर्हिर्-भाज्य-प्रभृति-
 -तीनि वैश्रौ १४, १५ : १२.
 इध्मा(ध्म-अ)र्ध-प्रमाण- -णम्
 कप्र २, ५, १४.
 इध्मो(ध्म-उ)च्छ्रय- -यम् अप
 २३, २, २.
 इन्धन- -नम् आमिष्ट २, ७, ७ :
 २१; भाश्रु ३, १९ : ३; अप ३८,
 ३, २; वाध २७, १; आपध १,
 १५, १२; हिध १, ४, ७१;
 -नानाम् अप २१, २, २; २६,
 ४, ५; -नानि वैश्रौ १३, ७ :
 १६; अप २६, ४, ६; -ने हिश्रौ
 ११, ५, ६^०; -नैः वैश्रु ४, १ : ४;
 अप २६, ४, ६.
 इन्धन-प्रदान- -नेन विध ९२,
 २४.
 इन्धन-व्रतना (न-अ) ध्यवसान-
 संनिपात्^०- -ते^० आपश्रौ १६,
 १२, १०; वैश्रौ १८, ११ : १०.
 इन्धना(न-अ)भाव- -वे वैश्रु ६,
 १८ : ४.
 इन्धना(न-अ)र्ध- -र्थम् कप्र १,
 ८, २१.
 इन्धनो(न-उ)दका(क-अ)मिकाष्ठ-
 तृणो(ण-उ)पल-पुष्प-फल-पर्णा-
 (ण-आ)दान^०- -नेषु शंघ १२.
 इन्धान- -नैः आपश्रौ ५, ६, ३; ८,
 ४^२; बौश्रौ २, १५ : १८; भाश्रौ;
 या ४, २४; -नम् माश्रु १, ३,
 ६; -नैः शाश्रौ २, ११, ३;
 काश्रौ २, १, ३; आपश्रौ; -नौ

आपश्रौ ९, ७, ८; भाश्रौ ९, १०,
 ३; माश्रौ.
 इन्धित- -तः वैश्रु ५, १ : १९.
 एध^०- पा ६, ४, २९; -धाः पावा १,
 ४, २३; -धान् माश्रौ ६, ८, १;
 आपश्रु ११, २४; कौसू ८०, ५१;
 अप्राय ३, ८; आपध १, ४, १४;
 हिध १, १, १३३; गौध १२,
 २५.
 एधा(ध-आ)चित- -तानाम्
 वाधूश्रौ ३, ८१ : ५; -तानि
 वाधूश्रौ ३, ७६ : ७.
 एधा(ध-अ)र्ध- -र्थम् कप्र १, ८,
 २२.
 एधो(ध-उ)दक^०- -के आपध २,
 २८, १०; हिध २, ६, १०.
 एधो(ध-उ)दक-मूल-फला(ल-अ)
 भया (य-आ) मिष-मधु-शय्या
 (ध्या-आ) सन-गृह-पुष्प-दधि-
 शाक- -कान् विध ५७, १०.
 एधो(ध-उ)दक-यवस-कुहा-लाजा
 (ज-अ)भ्युद्यत-याना (न-आ)
 वसथ-शफरी-प्रियङ्गु-स्रग्-गन्ध-
 मधु-मांस- -सानि वाध १४, १२.
 एधो(ध-उ)दक-यवस-मूल-फल-
 मध्व (धु-अ) भया (य-अ)भ्युद्यत-
 शय्या (ध्या-आ) सना (न-आ)
 वसथ-यान-पयो-दधि-धाना-श-
 फरी-प्रियङ्गु-स्रग्-मार्ग-शाक-
 -कानि गौध १७, ३.
 ऋधस^०- पाउभौ २, १, ३४०; -धः
 आश्रौ ३, ६, २६; काश्रौ १९, ५,
 १९; २६, ७, ३९; आपश्रौ;
 -धसे शांश्रु ५, १, ८^६; -धांसि
 वैश्रु ५, ३ : १५.

a) विप. । बस. । b) वैप १ द्र. । c) समाहारे द्वस. । d) भाप., नाप. । e) सपा. इन्धने
 व्रतनैः ध्यवसाने च सर्वासु संनिपातितसु <> इन्धनम् इति पाठे. । f) द्वस. > वस. । g) भाप. । सपा.
 एधसे <> एनसे (तैश्चा १०, ५, १ च) इति पाठे. ।

एधो (धस्-अ) भ्याधान- -नम्
कौस् २, २६.
इधान- इध्म- प्रसृ. √इध्, न्ध् द्र.
इन्- पाठ ३, २; पाग ४, १, १५१^b;
-नः अप ४८, ११४; ऋअ
२, १०, ३; साअ २, ८९६;
निघ २, २२; या ३, ११९;
१२०^o.
ऐन्य- पा ४, १, १५१.
†इन-तम- -मम् या ११, २१०.
?इनद्धि अप ४८, ६१.
इनपिण्डी- (> ऐनपिण्डी-) इन्-
टि. द्र.
?इनाहेदहारम्^d वाश्रौ १, ५, ५, ७.
√इन्द्र^o पाधा. भ्वा. पर. परमेश्वर्ये,
इन्द्रत्- -न्द्व् या १०, ८.
†इन्दु^a- पाठ १, १२९; -न्दवः आश्रौ
७, ८, २^a; ८, १, २; शाश्रौ ९,
१९, ३; १८, ७, १२; आपश्रौ ८,
७, १०; बौश्रौ १६, २६ : ३;
भाश्रौ; या ४, १७; ६, २४; -न्दवे
या १०, ४२; -न्दाश्वाश्च ३इ
लाश्रौ ७, १०, २१; -न्दुः
आश्रौ ६, १२ २; शाश्रौ १३,
१२, १०; काश्रौ २५, १२, ५;
आपश्रौ ९, १९, ५××; बौश्रौ; कप्र
२, ६, ७९; निघ १, १२; १७;
५, ४; या १०, ४१०^f; ४२; १४,

११; १६^b; १७०^f; आज्यो ७,
१९९^g; -न्दुना आपश्रौ १६,
३४, ४; वैश्रौ १८, २१ : ३२;
हिश्रौ ११, ८, १५; अप ५२,
१३, ४; -न्दुभ्यः बौश्रौ १८,
२८ : २१; -न्दुम् शाश्रौ १५,
१५, १३; काश्रौ २५, १२, ५;
आपश्रौ १४, २९, २; १६, २७,
१०; बौश्रौ १०, ३४ : ९; २९,
५ : १२; माश्रौ ३, ६, १५; ६,
१, ७, २८; वैश्रौ १८, १९ : ५;
हिश्रौ ११, ७, ५९; द्राश्रौ १३,
४, ८; लाश्रौ ५, ४, १५; वैताश्रौ
३०, १२; ङ्गु १२, १; १९, ३;
२१, १; २३, ३; २५, १; २६,
३; २७, ३; २८, ४; ५; २९, ४;
६; अत्राय ६, ३; अप ६८, १,
१५; -न्द्व् बौश्रौ १८, २८ :
११; -न्दो आश्रौ ५, ६,
२६; शाश्रौ ७, १५, १६; १३,
१२, १०; काश्रौ २५, १२, ५;
आपश्रौ; वैताश्रौ २४, १^a; या ६,
५, ९, २; -न्दोः हिश्रौ १५, ७,
१५; वैताश्रौ; वेज्यो १४९^g;
-न्दौ लाश्रौ ७, १२, ३; या १०,
८.
ऐन्दव¹- -वाः वेज्यो १५.
ऐन्दवी- -वी ऋअ २, १,

१२९; वृदे ४, ४; अअ १८,
३.
इन्दु-प्रमद- -दस्य चाअ ४०:५^h.
इन्दु-मत्- -मते शाश्रौ २, ५, १५;
काश्रौ ४, ११, १२.
इन्दुमती¹- -ती वैश्रौ १,
२० : ४.
इन्दु^o-अत- -ते शंघ ४५२.
इन्द्र¹- पाठ २, २८; पाग २, १, ५९;
५, ३, १००; -†न्द्र आश्रौ १,
६, १; २, ९, १०××; शाश्रौ १,
६, २^m××; काश्रौ; आपमं १, १,
९^l; ६, १४^o; ८, ८^o; ११, ४^p;
वीग १, ९, ३^p; हिग १, ४, ८^q;
पावा ६, १, ९२; -†न्द्रः आश्रौ
१, ६, १××; २, १०, १६^r; ११,
८^s××; शाश्रौ १, ८, २३^r××;
१८, ५, १^a; काश्रौ; कौग १, १०,
२४^m; शांग १, १७, ९^u; पाग १,
९, ५^v; काग २५, ९; ३०, ३^p;
माग १, ८, ११; १४, १६^p; वाग
१४, १; अप ६२, १, १^v; निघ
५, ४; या १०, ८^f; -†न्द्रम्
आश्रौ १, ३, ११; २७××;
शाश्रौ; आपश्रौ १६, ३०, १^w;
वैताश्रौ २५, १३^x; -न्द्रस्य आश्रौ
१, १३, १^z; ४, ७, ४××; शाश्रौ;
माश्रौ १, ४, २, ६^y, हिश्रौ १, ४,

a) वैप १ द. । b) व्यप. । इन्-, पिण्डी- इति भागडा. । इन्पिण्डी- इति पाका. । c) पाभे.
वैप १, ८०३ e द. । d) पाठः? । सप्र. पाभे. ?इन्द्राह इन्द्राहरन् द. । e) या १०, ८ परामृष्टः द. । f) पाभे. वैप १,
८०३ h द. । g) =चन्द्रमस्- । h) पाभे. वैप १, ८०४ e द. । i) पाभे. वैप १, ८०५ d द. । j) विप. ।
तस्येदमीयस् सास्यदेवतीयथ अण् प्र. । k) =ऋषि-विशेष- । ँदे इति पाठः? यनि. शोधः । इन्द्र^o [यद्र.] इति
विचारसहम् । l) विप. ([इन्दुमच्छब्द-वृती-] याज्या-) । m) सपा. मात्रा १, ५, १, १६ अग्ने इति पाभे. ।
n) पाठः? इन्द्रः इति शोधः (तु. आपमं भू [XVI], सपा. काग २५, ९ माग १, ८, ११ च) । एतदनु वैप १, ८०८ a
शोधः द. । o) पाभे. वैप १, ८१५ b द. । p) सपा. इन्द्र <> इन्द्रः इति पाभे. । q) पाभे. वैप १, ८१७ a द. ।
r) सपा. तैत्रा २, ५, ३, १ अस्य इति पाभे. । s) सकृत् सपा. तैत्रा २, ४, ६, १२ इन्द्रा इति पाभे. । t) सपा.
तैत्रा २, ७, १३, २ इन्द्रम् इति पाभे. । u) सपा. मंत्रा १, ४, ८ वायुः इति पाभे. । v) =भूकम्प-विशेष- ।
w) पाठः? ऐन्द्रम् इति C. शोधः । x) पाभे. वैप १, ८१६ f द. । y) पाभे. वैप १, ८३१ i द. ।

५२^a; चाअ^p १: १३; ४: १;
 ४: ६: ३; १३: १; १४:
 २; १७: ६; ३०: १८; ३९:
 १२; ४१: ७; निघ १, १५^f;
 पा ७, ३, २२; -^०न्द्रा^o आपथ्रौ
 १५, १०, ११; बौथ्रौ ९, १०: १९;
 माथ्रौ ११, १०, ११; वैथ्रौ १३,
 १२: १७; हिथ्रौ २४, ४, ९;
 निस् ६, ११: १७^g; -न्द्रा^३
 बौथ्रौ २६, ३१: १३; -^०न्द्रात्
 निस् ३, ९: ४०; अप्राय २, ९;
 या ७, २; -^०न्द्राय आथ्रौ २,
 १०, १५; ११, १९××; शांथ्रौ;
 आपथ्रौ १, १३, १४^a; ८, १२,
 ४^f; आथ्रौ ८, १४, ५^f; माथ्रौ
 १, १, ३, ३४^a; ४, ३, २६^d;
 वाथ्रौ १, २, २, ३२^a; हिथ्रौ ५,
 ३, ४५^f; -^०न्द्रे आथ्रौ ७, २,
 ४; शांथ्रौ; शुप्रा ४, ८५^b; पा ६,
 १, १२४; -^०न्द्रेण आथ्रौ ७, २,
 ३××; शांथ्रौ; आपथ्रौ ४, १२,
 ३^d; बौथ्रौ १, २१: २८^b; आथ्रौ
 ४, १८, १^b; हिथ्रौ ६, ३, ११^b.
 हन्द्राणी- पा ४, १, ४९;
 -^०णि बौथ्रौ १३, १३: ५;
 या ११, ३९; -^०णी वैथ्रौ ५,
 ३: ७; काय; निघ ५, ५; या
 ११, ३७^g; १२, ४६^f;

-^०णीम् बौथ्रौ १३, १३: ५;
 आमिग; या ९, ३४; ११, ३८;
 -^०ण्या काय १७, २; माय १,
 १०, १७; वाय, १३, ४; -ण्या:
 माथ्रौ १, १, १, ४४^f; ^०वाथ्रौ;
 चाअ १: १३^f; -^०यै आपथ्रौ
 १, ४, १२; बौथ्रौ.

हन्द्राणी-देव(त>)ता¹-
 -ता बौथ्रौ २६, ३१: १.

हन्द्राणी-दैवत- -तम्
 अथ्रौ १, २४.

हन्द्राणी-वरुणान्य(नी-अ)
 ग्नाथी- -थीनाम् ऋअ २, १,
 २२.

ऐन्द्र^a- -^०न्द्र¹ बौथ्रौप्र३९: १;
 वैथ्र ४, १, ११: २, ३; -न्द्र:
 आथ्रौ ५, ३, ३; शांथ्रौ २, ३,
 ६××; काथ्रौ; कौय ४, ३, १^g;
 ऋअ २, १०, १९^b; २७^o;
 ८६^p; ९६^q; १०३^r; ११९^s;
 १८०^t; वृदे ८, १३^r; शुअ
 २, ११५^u; ३५४^v; ३, २५२^w;
 साअ १, ३३४^x; ४२२^y;
 ११९९^r; १२२३^v; या ५,
 १२; -न्द्रम् आथ्रौ २, १४,
 ९; ३, १०, २९××; शांथ्रौ;
 आपथ्रौ १८, २, १^x; -न्द्रस्य
 शांथ्रौ ६, १०, ७; काथ्रौ १५, ९,

५; आपथ्रौ; हिथ्रौ १३, १, १३^x;
 -न्द्रा: शांथ्रौ १६, ९, २८;
 काथ्रौ; आपथ्रौ २०, १४, १२^y;
 -न्द्राणाम् वृदे ६, ४४; ७, २२;
 ४०; -न्द्राणि आथ्रौ ७, १२, २;
 शांथ्रौ; वैथ्रौ १७, ८: ११^z; हिथ्रौ
 १३, १, १३^z; -न्द्रात् शांथ्रौ १२,
 २६, २; वैय ३, १६: १०; ऋअ
 १, १२, १२; २, १, ६४; वृदे ३,
 १३०; ७, १४३; -न्द्रात् शांथ्रौ
 १२, ७, ५; काथ्रौ; आपथ्रौ १८,
 २, १^z; -न्द्रे शांथ्रौ १४, २९,
 ८; आपथ्रौ १९, २१, १८; या
 ११, २^z; -न्द्रेण काथ्रौ १९,
 १, २६; आपथ्रौ ४, ७, २^z; २२,
 २३, ३^{a1}; बौथ्रौ; हिथ्रौ १७, ८,
 २४^{a1}; १८, १, २०^{b1}; -^०न्द्रेभ्य:
 कौय ३, १०, ६; शांय २, १४, ७;
 -न्द्रेषु शांथ्रौ १२, ९, ८; क्षुस्;
 -न्द्रै: आथ्रौ ५, ४, १; काथ्रौ ८,
 ६, ९; अप ६२, ४, ७; वृदे १, ८७;
 -न्द्रौ आपथ्रौ १४, ७, १९; हिथ्रौ
 ९, ८, ४४; वृदे ८, १२२.

ऐन्द्री^{o1}- -न्द्रिय: आपथ्रौ
 २२, २७, १४; बौथ्रौ २७, १२:
 १२; हिथ्रौ २३, ४, ३९; -न्द्रिया
 आपथ्रौ ११, १०, १७; बौथ्रौ
 १४, ४: ४; ६; २९, १: ९;

a) पाभे. वैप १, ८१८ a द्र.। b) = ऋषि-विशेष-। c) चतुर्थ्यां आकारादेशः (पा ७, १, ३९)
 इति भा (तैआ ४, ९, ३)। d) पाभे. वैप १, ८२५ a द्र.। e) हन्द्र- इत्यस्य निघनोच्चारणं द्र. (तु. तां १७, १, ८
 लाथ्रौ ८, ६, ५)। f) पाभे. वैप १, ८११ h द्र.। g) पाभे. वैप १, ८२० d द्र.। h) पाभे. वैप १, ८११
 i द्र.। i) = ऋषिका-विशेष-। j) विप.। बस.। k) वैप १ द्र.। l) व्यप.। m) ^०न्द्रम् इति पाठः ?
 यनि. शोधः (तु. सप्र. शांय ४, १६, १)। n) = विमदाख्य-ऋषि-। o) = वसुक्- [इन्द्र-पुत्र-]। p) = वृषाकपि-
 [इन्द्र-पुत्र-]। q) = सर्वहरि- [इन्द्र-पुत्र-]। r) = अप्रतिरथ- [इन्द्र-पुत्र-]। s) = [इन्द्र-रूप-] लव-। t) = जय-
 [इन्द्र-पुत्र-]। ^०न्द्रः इति षड्गुरुशिष्यः। u) = प्रिय-मेघस्-। v) = जय-। w) = मेघस्-। x) ऐन्द्रमति-
 आहं पात्रं इत्यस्य स्थाने सप्र. वैथ्रौ १७, ८: ११ ऐन्द्रातिग्राह्यपात्रस्य इति, हिथ्रौ १३, १, १३ ऐन्द्रस्याऽतिग्राह्य-
 पात्रस्य इति च पाभे.। y) पाभे. वैप १, ८२३ a द्र.। z) सप्र. ऐन्द्राणी <> ऐन्द्रात् इति पाभे.। a¹)
 = सप्तारत्र-विशेष-। b¹) = षोडशरात्र-विशेष-। c¹) विप., नाप. (प्राची-दिश-)।

वैश्रौ १५, १ : ८; १८, १५ : ३;
 १६ : ८६; २१, १२ : ३; हिश्रौ
 ११, ७, १३; -न्द्रियाः बौश्रौ
 २२, ५ : १२; -न्द्री आपश्रौ ४,
 ९, ५१××; बौश्रौ ३, १८ : ६१;
 भाश्रौ ४, १२, ९१; माश्रौ १, ४,
 १, २३१; वैश्रौ ६, ३:१०१; २०,
 ३९ : ८; हिश्रौ २२, ३, १४^२;
 या ४, १६; -न्द्रीः शाश्रौ १२,
 ७, ६; आपश्रौ २०, २२, ११;
 वृदे ८, १००; शुभ २, २८५;
 -न्द्रीभिः आश्रौ ६, ७, २;
 आपश्रौ २१, १७, ३; बौश्रौ २७,
 १२ : १५; -न्द्रीभ्याम् आपश्रौ
 ८, १६, ८; -न्द्रीम् आश्रौ २,
 ११, १५; ५, १५, २२; ८, ६,
 १३; †शाश्रौ××; -न्द्रीषु बौश्रौ
 १६, ३१ : १६; १९; निसू ६,
 १३ : १५; -न्द्रयः निसू १, १३:
 २४; ४, ९:५; ऋश्रः -न्द्र्या आश्रौ
 २, ११, १५; ६, ७, २; आपश्रौ
 ८, १६, ८; बौश्रौ ७, १ : १३;
 २५, १४ : ११; १५ : ९; माश्रौ
 २, ३, १, १; ६, १, ५, २४; वैश्रौ
 ९, ९ : १३; वैताश्रौ २८, २८;
 -न्द्र्याम् आश्रौ ९, ४, ६; काश्रौ
 १९, ५, २; वैताश्रौ ३०, १६;
 बौपि ३, ४, ११; अप ५९, १, ४;
 अशा १८, ४; १९, ४; वृदे ७,
 १४४; या १२, २०^२; ३३;
 -न्द्रौ बौय ४, ४, १२; ऋश्र २,
 १, ६; २, ३२; ४, ५०; ७, १०४;

वृदे ४, ८६; शुभ १, २१७;
 २१८; ३, ५९; साश्र १, २५८;
 ४२७-४३६.

ऐन्द्री-मध्य (म>)

मा^१- -मे साश्र २, १२२०.

ऐन्द्री-सौम्या(म्या-अ)

पराजिता- -ताः कप्र १, १, ९.

ऐन्द्रया(न्दी-आ)दि-

-दि ऋश्र २, ७, ९७.

ऐन्द्र-स्व- -स्वात् निसू ६,

१३ : ३८.

ऐन्द्र-वत् वैश्रौ १७, ८ : ११.

१ ऐन्द्र-वारुण^१- -णौ अप
 ६४, २, ५.

ऐन्द्र-वारुण-कौबेर-

-रान् अप ६३, १, २.

ऐन्द्र-सावित्र-वारुण- -णाः

आश्रौ ३, ९, २; -णैः वैश्रौ ११,
 ६ : १.

ऐन्द्र-सूक्त- -क्ते वृदे ६, ७७.

ऐन्द्र-स्थ- -स्थः अप ५९,
 १, ४.

ऐन्द्र-स्थान- -नम् वाघ

१९, ४८; -ने अप ७०^२, १७, १.

ऐन्द्रा(न्द्र-आ)श्रेय^८- -ये वृदे
 ४, ९९.

ऐ (न्द्र>) न्द्रा-जागत^१-

-तम् वैताश्रौ ३२, ३५^१।

ऐन्द्रा(न्द्र-अ) तिघ्राष्टपात्र-

-त्रस्य वैश्रौ १७, ८ : ११^०.

ऐन्द्रा(न्द्र-आ)घ- -घम् वैय

१, ११ : ४.

ऐन्द्रा-बाहृत^१- -ताः लाश्रौ
 १०, ६, ३.

ऐन्द्री✓कृ > ऐन्द्रो-षिकी-
 षा- -र्वया निसू ७, १० : ३०.

ऐन्द्रि^१- -न्द्रेः चाश्र १३ : ३१^६;
 १६ : ५^१.

†ऐन्द्रय^१- -न्द्रयम्^१ काश्रौ १०,
 ९, ४; १०.

इन्द्र-कम्प^१- -म्पे अप ६२, ४, ७.

इन्द्र-कम्पन^१- -नम् अप ६२, ४, ५.

इन्द्र-कर्मन- -र्म या ७, १०.

इन्द्र-कील^१- -ल्ले अप ५८^२, ४, २.

इन्द्रकील-गोपुरा (र-अ) दालक-
 ध्वजा(ज-आ)दि- -दीनाम् अप
 ७२, ३, १०.

इन्द्रकील-परिघ- -घौ बौध २,
 ३, ३४.

इन्द्र-कुक्षि^१- -क्षी शाश्रौ १३, २९,
 २३; २५; आपश्रौ २३, १३, ७; ९;
 हिश्रौ १८, ४, ४३; ४५; लाश्रौ

१०, १८, ४; निसू १०, १० :
 १०; २१.

इन्द्र-कौशिक^१- -काः बौश्रीप्र ३९;
 १; -कानाम् वैध ४, १, ११.

इन्द्र-क्रतु^१- -तुः लाश्रौ १०, ६, ४;
 निसू ५, ३ : १०; ९ : १३;
 -तुम् निसू ५, ९ : २०; २५;

-तोः निसू ९, १२ : २०; -तौ
 शाश्रौ १२, ९, १७; द्राश्रौ ८, ३,
 ७; १९; लाश्रौ ४, ७, १; ३; १०,
 ८, ६; निसू ५, ५ : २; १०,
 ६ : ५.

a) विप. । बस. । b) विप. । द्वस. । c) समाहारे द्वस. । d) विप. । कस. पूष. छान्दसः

जानह् । e) पाभे. पृ ५९९ ऋ द्र. । f) = ऐन्द्र- । तस्यापत्वीयः इह प्र. [पा ४, १, ९६ (तु. षड्गुरुशिव्यः
 [ऋश्र २, १०, १८०])] । g) = आवर्तनाख्य-ऋषि- । ऋः इति पाठः? यनि. श्लोचः (तु. उत्तरं स्थलम्) ।

h) = पारुष्याख्य-ऋषि- । i) विप. । प्राग्दीव्यतीयः यन् प्र. ढसं. (पावा ४, १, ८५) । j) तु. चौरसः; वैतु. कासं.
 षड्गुरुशिव्य इति । k) = भूकम्प-विशेष- । मलो. कस. । l) = अर्गल- इति बौध. भाष्यम्, B.W. । व्यु. ? । m) = सोमयाग-
 विशेष- । व्यु. । n) = ऋषि-विशेष- । o) = (इन्द्र क्रतुम् [ऋ ७, ३२, २६] इतियुक्त-) प्रगाथ-विशेष- ।

‡इन्द्रकृतूत्तर- -रे निस् ५, ५ :
१९^a.

इन्द्र-ग्रह- -०ह आपश्रौ १४, २६,
१^२फ.

†इन्द्र-घोष^०- -घः^० काश्रौ ५, ४,
१०; आपश्रौ ७, ५, १; बौश्रौ ४,
३ : १; माश्रौ ७, ४, २; वैश्रौ
१०, ५ : १; हिश्रौ ४, १, ६४;
शुश्र १, ३११; -पाः बौश्रौ १२,
१० : ४६; माश्रौ १, ७, ३, २९^०;
वाश्रौ १, ६, १, ३१^०.

इन्द्रघोष-व (त >) ती- -तीः
बौश्रौ ४, २ : ३६; २४, ३६ : ५;
-तीभिः बौश्रौ ४, २ : ४०.

इन्द्र-चापो(प-उ)द्रम- -मः अप
६४, ६, ७.

इन्द्र-चिकीर्षित- -तम् वृदे ६, १००.

?इन्द्रजालि-, -ली- (> ऐन्द्रजा-
ल्य-)?इन्द्रलाजी- टि. द्र.

इन्द्र-जुष्ट- -ष्टम् पा ५, २, ९३.

†इन्द्र-ज्येष्ठ^०- -ष्टाः बौश्रौ १०,
५२ : ४; माश्रौ ६, २, ४, १;
वाश्रौ २, २, ३, २; -ष्टेभ्यः
आपश्रौ ४, २, २; १४, ३२, ५;
बौश्रौ ७, ४ : १४; २९, ५ : १८;
भाश्रौ ४, २, ६; हिश्रौ ६, १, १९;
१५, ८, ३१.

इन्द्र-ण (त >) ता- -तया द्राश्रौ
११, १, ७; लाश्रौ ४, १, ७^०;
-ता द्राश्रौ ११, १, ८.

इन्द्र-तनु^०- -नुः आपश्रौ १७, ६, २;
बौश्रौ १०, ४६ : १; वैश्रौ १९,

५ : २७; हिश्रौ १२, २, १३.

†इन्द्र-तम- -मे आश्रौ ४, ७, ४;
शाश्रौ ५, १०, ३१; बौश्रौ ९, ११:
२७; द्राश्रौ १४, ३, ७; लाश्रौ ५,
७, ६.

इन्द्र-तीर्थ- -थम् शंघ ११६ : १४.

इन्द्र-तुरीय^०- -यम् काश्रौ १५, १,
२२; बौश्रौ १२, ३ : १७; २६,
३ : २; हिश्रौ १३, ३, ३०; -ये
माश्रौ ५, २, ७, १०; -येण
आपश्रौ १८, ९, ६; बौश्रौ १२,
४ : १८; वाश्रौ ३, ३, १, १५.

इन्द्रतुरीय-प्रभृति- -तिभिः
बौश्रौ १८, ५ : ५; ६ : ६; हिश्रौ
१३, ३, २९.

इन्द्र-तुल्य- -ल्यम् ऋञ्ज २, १, ५१;
३, १; १०, ४७.

इन्द्र-त्व- -त्वम् या १०, ८^१;
-त्वाय आश्रौ ६, ४, १०.

इन्द्र-दत्त- -त्तः बाध १२, २४;
-तम् पा ५, २, ९३.

इन्द्र-दष्ट- -ष्टम् पा ५, २, ९३.

इन्द्र-देव (ता >) त- -ताः कौस्
१४०, १२; अप १९, ३, २.

इन्द्र-दैवत्य- -त्यम् पाठ २, १३, १;
चव्यू ४ : २२.

इन्द्र-धनुस्- -नुः पाठ २, ७, १३;
बाध १२, ३२; आपध १, ३१,
१६; बौध २, ३, ३२; वैध ३, २,
१२; हिध १, ८, ३४; गौध ९,
२३; -नुषि अप ७२, १, ६;
हिध १, ३, ८२^१.

इन्द्रधनुः-प्रतिसूर्य-मत्स्य^६-
-स्यः आपध १, ११, ३१^१.

?इन्द्रध्वजोत्थितवनस्पतिवाजिन्^७-
-जिनाम् अप ७०^१, ११, २१.

इन्द्र-ध्वजो(ज-उ)प (म >) मा^१-
-मा अप ५८^१, ४, ६; -माः अप
५८^२, २, ६.

इन्द्र-नामन्- -मानि आपश्रौ १७,
६, १; हिश्रौ १२, २, १४; चाञ्च
३९ : १२.

इन्द्र-निहव^१- -वः आश्रौ ५, १४,
५; ७, ३, ७; शाश्रौ ७, २६, १;
-वम् शाश्रौ ७, १९, १०; १२,
६, १२; १८, १०, १२; -वात्
आश्रौ ५, १५, २०.

इन्द्रनिहव-ब्राह्मणस्पत्य- -स्यान्
आश्रौ ५, १५, १०; -त्यानाम्
शाश्रौ ७, २५, ११.

इन्द्र-नील^६- > ^०ल-कडारा (र-आ)
ल्य^१- -ल्यम् विध १, ३८.

इन्द्रनील-सम-प्र(भा >)म-
-भान् अप २१, १, २.

इन्द्रनीला(ल-आभ >)भा-
-भाः अप २१, ६, ३.

इन्द्र-नेत्र^१- -त्राय अप ३६, ९, १२.

इन्द्र-न्य(ङ् >)ङ्गा^१- -ङ्गाभिः निस्
७, १० : २०.

इन्द्र-प(ति >)वी^३- -नीम् पाठ
२, १७, ९.

इन्द्र-पान^०- -नम् आश्रौ ६, ४,
१०^१; या ८.२.

इन्द्र-पाश- -शेन वाश्रौ ३, २, ६,

a) पाठः? इन्द्रकनुः (प्रगाथः), उत्तरे इति द्वि-पदः शोषः (तु. संस्कृतुः टि.) । b) वैप १ द्र. ।
c) पाभे. वैप १, ८२३ f द्र. । d) इन्द्रेण तया इति पाठः? यनि. शोषः (तु. द्राश्रौ. जैमि २, ४५) । e) = कर्म-
विशेष- । शिष्टं वैप १ परि. द्र. । f) सपा. इन्द्रधनुषि प्रति^० <> इन्द्रधनुःप्रति^० इति पाभे. । g) द्रस. >
मलो. कस. । प्रतिसूर्य- = सूर्यबिम्ब-सदृश-, मत्स्य- = [मत्स्याकृति-] पुच्छल-नक्षत्र- । h) अर्थः अवग्रहश्च ? ।
i) विप. । बस. । j) = प्रगाथ-विशेष- । षस. । k) = मणि-विशेष- । व्यु. ? । l) विप. । कस. (पा २,
२, ३८ [पूर्वनिपाताऽभावः]) > तुस. । m) = (उपचारात्) सीता- [लह-रेखा-] । षस. ।

२२; पाठ ३, ७, ३^h.

†इन्द्र-पीत^b- -त् जैश्रौका १४०;
-तः आपश्रौ १९, ३, ७; हिश्रौ
१३, ८, ३३; जैश्रौ १४ : २०;
-तस्य आश्रौ ५, १३, ६; ६, ३,
२२; शाश्रौ १३, १२, १०; काश्रौ
२५, १२, ५; आपश्रौ १२, २४,
९; १४, २९, २; बौश्रौ ७, १५ :
१०; ८, ४ : २५; १२ : ३७;
१७ : २; २९, ५ : १३; माश्रौ
२, ४, १, ४४; ४, २९; ५, १, ३३;
३, ६, १५; वैश्रौ १५, ३५ : ६;
हिश्रौ १५, ७, १५; जैश्रौ १४ :
१२; -तान् बौश्रौ २३, १३ :
२३६.

इन्द्र-पीथ- -थस्य वैताश्रौ १९,
१६१.

†इन्द्र-गु(त्र>)त्रा^b- -०त्रे कौसू
१३८, ७; अप ४६, ५, २.

†इन्द्र-पुरुष- -षेभ्यः आश्रौ १, २,
५; आमिश्रौ १, ७, २ : ६; काश्रौ
५४, ११; भाश्रौ ३, १४ : १; माश्रौ
२, १२, १२; वैश्रौ ३, ७ : ११;
विध ६७, १५.

इन्द्र-पुरोहित^d- -तः अप ३७, १, ९.

इन्द्र-प्रणय->°यी^e- -यीः वाश्रौ
१४, ३१.

इन्द्र-प्रघा(न>)ना^d- -ना या ५,
१२; १०, ३.

इन्द्र-प्रभृति- -ति द्राश्रौ १०, १, २०;

लाश्रौ ३, ९, २२.

इन्द्र-प्रमति^f- -तिः ऋअ २, ९, १७;
साअ १, ५३५.

इन्द्र-प्रमद^g- >एन्द्रप्रमद- -०द
आश्रौ १२, १५, २^h; आपश्रौ
२४, १०, ५; बौश्रौ ४७ : ७;
हिश्रौ २१, ३, १४; वैध ४, ६, ४.
इन्द्रप्रमद-वत् आपश्रौ २४, १०,
५; बौश्रौ ४७ : ७; हिश्रौ २१,
३, १४; वैध ४, ६, ४ⁱ.

इन्द्र-प्रयाण^l- -णे विध ३०, ६^k.

†इन्द्र-प्रशि(ष्ट>)ष्टा- -ष्टाः कौसू
३, ३^l.

इन्द्र-प्रसाद- -दात् वृदे ७, ५९.

इन्द्र-प्रार्थना- -ना अअ १, ८; -नाम्
अअ १, २, १.

इन्द्र-प्रेषित- -तः आपमं २, १७,
२१.

इन्द्र-प्रो(क्त>)क्ता- -क्ता कौश्रौ १,
१६, १८; शाश्रौ १, २४, १०.

इन्द्र-बृहस्पति^m^b- -ती अअ ७, ५१

इन्द्र-भक्ति^d- -क्ति वृदे १, ७७;
-क्तीनि या ७, १०.

†इन्द्र-मरुत्- -रुतः माश्रौ ५, १,
७, २२; -रुतयः माश्रौ ५, १, ७,
२१.

एन्द्रमारुत्- -ताः आपश्रौ
२२, २०, १८; हिश्रौ १७, ७, २८.

एन्द्रमारुती- -स्यःⁿ,

-स्यौ अअ २०, ७०.

इन्द्रमरुत्-संवा(द>)दा^d- -इ
शुअ ३, २४०.

इन्द्र-मरुद्-अभि- -अयः अअ २०,
१.

इन्द्र-मह^o- -हस्य कौसू १४०, १^p;
अप १८^q, ३, १; -†हेण कौसू
१४०, २२; अप १९, ३, ९.

इन्द्रमहो(ह-उ)स्सव- -वः अप
१८^r, १९, २; -वस्य अप १९,
१, १^p.

इन्द्रमहादेव- -वौ अप १, ४, ४.

इन्द्र-मान्- -तरः ऋअ २, १०,
१५३; साअ १, १२०; १७५;
-ता वृदे २, ८३.

इन्द्र-मादन^b- -नासः आश्रौ ८, ९,
२१.

इन्द्र-यज्ञ^q- -ज्ञः पाठ २, १५, १.

इन्द्र-यष्टि- -ष्टिः अप ७२, १६, ४.

इन्द्र-याजिन- -जिनः आपश्रौ १, २,
७; भाश्रौ १, १५, १३; माश्रौ १,
१, १, १९; वैश्रौ ३, ७ : १६;
हिश्रौ १, २, १७; २१, २, १४[†];
-जी भाश्रौ १, १५, १४.

इन्द्र-रक्षित- -नम् सु ११, ६.

†इन्द्र-राजन्^r- -ज्ञोः वृदे ३, १५५.

इन्द्र-राजन्^d- -जानः शाश्रौ ४,
२१, ११.

इन्द्र-रूप- -पेण अअ ४, ११.

इन्द्र(न्द्र?ऋ)र्भु- > एन्द्रार्भव-
-वः वृदे ४, १२३.

a) पाठः? इन्द्रः, पाशेन इति द्वि-पदः शोधः (तु. आपमं २, २२, १० प्रभृ., सस्य. टि. ?परिस्वाङ्कं च) ।

b) वैप १ द्र. । c) इन्द्र-पीतस्य (तां १, ६, १) इत्यस्य निर्विभक्तिकमनुकरणं द्र. । d) विप. । बस. । e)

विप. (†इन्द्रप्रणयवती-† वधु-) मत्वर्थीयः ईंः प्र. (पावा ५, २, १०९) । f) = वसिष्ठ-पुत्र- । व्यु. ? । g) = ऋषि-

विशेष- । व्यु. ? । h) इन्द्र इति पाठः ? यनि. शोधः (तु. आपश्रौ. प्रभृ.) । i) इन्द्रवत् इति पाठः ? यनि. शोधः

(तु. आपश्रौ. प्रभृ.) । j) बस. पूष. = इन्द्रध्वज- । k) इन्द्रियप्र इति जीसं. ? । l) सपा. पै ६, ३, १२ प्रसृष्टाः

इति पाभे. । m) इन्द्रा इति सात. [शौ.] । n) एन्द्रमारुतः इति पाठः ? यनि. शोधः (तु. अत्रैव °स्यौ इति) ।

o) = उत्सव-विशेष- । उस. उप. अधिकरणे षः प्र. (पा ३, ३, ११८) । p) सप्र. इन्द्रमहस्य <> इन्द्रमहोत्सवस्य

इति पाभे. । q) नाप. । बस. वा मलो. कस. वा । r) द्रस. ।

ऐन्द्रार्भवी- वी ऋअ २, ८, ९३; सात्र १, १८९.
 ?इन्द्रलाजी^१- (> ऐन्द्रलाज्य- पा.)
 पाग ४, १, १५१.
 इन्द्र-लिङ्ग- -ङ्गम् या १, १७; पा ५, २, ९३.
 १इन्द्र-वज्र^२- -ज्रः^० वीश्रौ १८, ३६; १५; ४८ : ९; -ज्रम् आश्रौ १०, ४, ४९; वैश्रौ १८, २० : ४४†; -जात् चात्र ३० : ७; -ज्रे शाश्रौ १४, ८, १४९; -†ज्रेण माश्रौ ५, २, १२, १२; वाश्रौ ३, २, ६, २३; हिश्रौ ६, २, ३.
 २इन्द्र-वज्र- -ज्रयोः वृदे ७, २७.
 इन्द्र-वत् वीश्रौप्र ३९ : २; अष ११, २, ५^३; वैध ४, १, ११; २, ३; वृदे ७, १४८; पावा १, २, ६४.
 †इन्द्र-वत्- -वत् काश्रौ २६, ५, ६^४; -वतः वीश्रौ ९, ६ : ६^५; -वन्तः आश्रौ ५, २, १२; १३; आपश्रौ ८, १५, १७^६; १५, ६, २; वीश्रौ ३, १९ : ७; १४, ९ : ३१; ३२^७; माश्रौ ११, ६, २; वैश्रौ १३, ८ : १; हिश्रौ २४, २, ८; जैश्रौ ११ : १६; वैताश्रौ १७, ४; या ५, ११; ११, १५^८; -वन्ता^९ शाश्रौ ३, १८, १४.
 इन्द्रवती- -तीभिः निस् ७, १० : २९; -त्यः निस् ७, १० : २२; २९; -†त्या वैताश्रौ ७, ११^९; अष ४५, १, २०; २१.

इन्द्र-वयोधस्-> ऐन्द्रवायोधस्^१-
 -सयोः काश्रौ १९, ३, ६.
 इन्द्र-वरुण-> २ऐन्द्रवारुण-
 -णस्य माश्रौ ५, २, १, ६.
 इन्द्र-वह्नी^२- -ह्नीभिः आग्निष्ट २, ५, ९ : ३; जैष्ट २, ६ : ३.
 इन्द्र वसुक- -ऋयोः ऋअ २, १०, २८.
 इन्द्र-वाक्य- -क्यम् ऋअ २, १, १७०.
 †इन्द्र-वायु- -युभ्याम् आश्रौ ५, ५, २; काश्रौ; -यू आश्रौ ५, ५, ३; शाश्रौ; -०यू आश्रौ ५, ५, २; शाश्रौ; -र्योः वृदे ४, ५५.
 ऐन्द्रवायव- -वः आश्रौ ६, ९, ३†; आपश्रौ १४, २१, ४†; †हिश्रौ १५, ५, २६; २७; वृदे २, १२७; मीस् १०, ५, ८५; -वम् आश्रौ ५, ५, १२ ××; शाश्रौ; -वस्य शाश्रौ १०, ७, ३××; आपश्रौ; -वात् आपश्रौ १२, १४, ६; माश्रौ; -वान् हिश्रौ ८, ४, ४; -वे काश्रौ ९, ११, २३; माश्रौ २, ४, १, ४०; वैश्रौ १५, १६ : १; हिश्रौ १०, ४, २२; २३; मीस् ३, ५, १८.
 ऐन्द्रवायवो- -वी ऋअ २, २, ४१; वृदे ४, ९२; -वीम् शुश्र १, ४४४; -व्यौ ऋअ २, १, २३.
 ऐन्द्रवायव-पात्र- -त्रम् वीश्रौ ७, २ : १०; ६ : ३५; १४ :

३१; वैश्रौ १५, २ : ५; -त्रे वीश्रौ ७, १५ : ३.
 ऐन्द्रवायव-मैत्रावरुण- -णौ शाश्रौ ७, २, १; लुस् १, ११ : २१.
 ऐन्द्रवायव-शेष- -षस्य शाश्रौ ७, ४, १६.
 ऐन्द्रवायवा(व-अ)म^३- -मम् आपश्रौ २१, १४, ३; ५^४; २२, ८; २२, १४, ३; ५; ८; ११; वीश्रौ १६, १० : १; २; हिश्रौ १६, २, १२; १३^५; ७, २१; १७, ६, ३; -माः आपश्रौ १४, २२, ४; माश्रौ ३, ८, ७; हिश्रौ १५, ५, ३७; -मान् आपश्रौ १२, १४, १; ३; ४; माश्रौ २, ३, ५, २; वैश्रौ १५, १५ : ३; २१, ८ : ६; हिश्रौ ८, ४, १; ५; ६; लुस् १, ११ : ११; -मे आपश्रौ २१, १४, ५; वीश्रौ १६, १० : ३; हिश्रौ १६, २, १३; -मौ आपश्रौ २१, १४, २; ५; हिश्रौ १५, २, १२; १६, २, १३.
 ऐन्द्रवायवा(व-आ)घ- -घाः शाश्रौ १३, ११, ७.
 ऐन्द्रवाय (व्य >) व्या^६-
 -व्याः वृदे ५, ४, ६, १६; -व्याम् शुश्र ३, २४६^७.
 इन्द्र-वाह^८- -वाहा निस् २, ११ : ३१†.
 इन्द्र-वृक्ष^९- (> ँक्षीय- पा) पाग ४, २, ९०.

a) व्यप. । व्यु. ? । °जालि- इति पाका., °जाली- इति पासि. । b) बप्रा. । षस. । c) = एकाह- विशेष- । d) पाभे. वैप १, ८२५ a द्र. । e) पाठः ? °वन्तः इति शोषः (तु. तैआ ४, ४, १) । f) पाभे. वैप २, ३ खं. इन्द्रवन्तः तैआ २, ६, १६, २ टि. द्र. । g) पाभे. वैप १, ८२५ b द्र. । h) विप. । सास्यदेवतीये अणि प्र. उभयपददृष्टिः (पा ७, ३, २१) । i) = लता-विशेष- । व्यु. ? । j) विप. । बस. । k) विप. । सास्यदेवतीयः बस् प्र. उर्स. (पा ४, २, ३१) उभयपददृष्टिश्च । l) इ° इति पाठः ? यनि. शोषः । m) वैप १ द्र. । n) = तदाख्य- नृक्ष-विशेष- । मलो. कस. ।

इन्द्र-वैमृच^a- -घस्य भाश्री ४,
१४, ११.

इन्द्र-शत्रु^b- -शुः या २, १६६; ६,
४; नाशि १, १, ५.

इन्द्र-शरीरा (र-अ) वयव-देवता-
क^c- -कम् शुभ्र २, ४०९.

इन्द्र-शर्मन्^d- (> ऐन्द्रशर्मि- पा.)
पाग ४, १, ९६.

इन्द्र-शिरस्^e- -रसि अप ५८^f,
४, १.

इन्द्र-शुद्ध^g- -द्वे शंघ १०५.

†इन्द्र-सख^h- -खम् सु १९, ५;
बौगृ २, २, ९.

इन्द्र-सम- -मम् वृदे ३, ११५; ७,
४९.

इन्द्र-सव- -वेन वाश्री ३, १, २,
४६.

इन्द्र-सवितृ-वरुण-देवता-> °व
(त्य>)स्या- -स्याः शुभ्र २,
४४१.

इन्द्र-सहस्र- -स्त्राणि विध २०,
२५.

इन्द्र-सुपर्ण- -र्णयोः सु ३१, ९^r.

इन्द्र-सृष्ट- -ष्टम् अप ३७, १, २^f;
पा ५, २, ९३.

†इन्द्र-सेना- -ना आमिगृ २, ५, ३ :
२२; बौगृ ३, ७, १७; वेगृ ५,
४ : ३४.

इन्द्र-सोम-पूर्व- -र्वम् शुप्रा २,
५५.

इन्द्र-स्तम्भⁱ- -म्भाः^h बौश्रीप्र
१७:१३.

इन्द्र-स्तुत्^j- -स्तुत् शाश्री १६,
१५, ३; २९, १५; काश्री २१, २,
४; आपश्री २०, २५, ७; बौश्री

१८, १४ : ११; हिश्री १४, ६,
१८; वेताश्री ३८, ११; लुसू ३,
१४ : १; ७; -स्तुतम् शाश्री

१४, ५८, १; -स्तुता आश्री ९,
७, २६; आपश्री २२, १०, ३;
१३, ८; २७, १३; बौश्री १८,
१४ : १; हिश्री २३, ४, ३९;

-स्तुति बौश्री २३, १८ : १६;
२६, ३१ : १८; शुअ ३, १७८.

इन्द्र-स्तुत^k- -तेन हिश्री १७, ४,
१९.

इन्द्र-स्तुति- -तिः ऋअ २, ३, ३३.

इन्द्र-स्तोम^l- -मः काश्री २२, ११,
१३; २४, ४, ६; आपश्री २३,
९, ५; हिश्री १८, ३, १०; -मम्

शाश्री १३, २१, ७; बौश्री १६,
३५ : ५; -मे लाश्री ९, ४, २९;
वेताश्री ३९, १३; -मेन आपश्री

२२, १०, ३; १३, ८; २७, १३;
हिश्री १७, ४, १९; ५, २९; २३,
४, ३९.

इन्द्र-स्पर्श- -र्शः बौश्री २६, ३१ :
१७.

इन्द्रस्य (अयन-) लाश्री १०, १३, ६.

इन्द्रस्य-यशस्^m- -शः लाश्री ६,
११, ४.

इन्द्रस्य(रोचन-)ⁿ द्राश्री २, २, २८;
लाश्री १, ६, २६.

इन्द्रस्य-वैराज^o- -जे जैश्रीप ७.

इन्द्रस्य-संजय^p- -यम् जैश्रीप ८.

इन्द्रस्य(ससाह-)^q काश्री २३, ५, ८.

इन्द्रस्या (स्य-अ) पामीव^r- -वम्
लुसू ३, ११ : १९; १२ : १६.

इन्द्र-हरिवत्-पीत^s- -तस्य माश्री
२, ५, ३, ११.

इन्द्र-हृ^t- (> ऐन्द्रहृव्य- L >
°हव^u- पा ४, २, १११) पाग
४, १, १०५.

†इन्द्रा^v आश्री ७, ९, २; शाश्री ६,
११, १; १२, १०, ४; ११, २२;
कौसू ५, २; ऋअ २, ६, ५७;
साअ १, २०२^r; ३३८.

इन्द्रा-कुत्स^w- -त्सा वृदे १, ५६;
५, २८.

ऐन्द्राकौ(त्स>)त्सी- -त्सी ऋअ
२, ५, ३१.

इन्द्रा(न्द्रा-अ)गस्य- -स्त्ययोः ऋअ
२, १, १७०.

इन्द्रा (न्द्रा-अ) मि- -मिभ्याम्
आश्री ५, ७, ३ⁿ × ×; शाश्री ७, ६,
३ⁿ; काश्री १२, ६, २८ⁿ; आपश्री

२१ⁿ, ५, १६; ६, १; बौश्री ६,
५ : २८ⁿ; वाश्री ३, २, १, ३९ⁿ;
हिश्री १६, ३, २ⁿ; आगृ २, २,
४^o; कौसू ७४, १५^o; शुअ २,
१५४^o P; -मिभ्योः आपश्री

४, ९, १३; ११, २१, ३; बौश्री
३, १८ : १७^o; ६, ३३ : ५;
भाश्री ४, १४, ६^o; वाधूश्री;
-ग्नी आश्री १, ३, १० × ×;
शाश्री १, ५, ३ × ×; १०, १, १३ⁿ;

a) = [इन्द्रवैमृच- देवताक-] पुरोडाश- वा हविस्- वा । सास्यदेवतीयः अण् प्र. वृद्धयभावश्च । b) वैप १

द्र. । c) विप. । षस. > षस. > बस. । d) = ऋषि-विशेष- । व्यु. ? । e) षस. पूष. = इन्द्रध्वज- । f) साम्नोः

द्रस. । g) पृ ३८ i, j द्र. । h) = एकाह-विशेष- । उप्त. उप. अधिकरणे क्विप् प्र. । i) = इन्द्रस्तुत्- । बस. ।

j) = साम-विशेष- । k) = एकाह-विशेष- । l) विप. । कस. > लुस. । m) = तदृषि-शिष्य- । n) सपा.
°मिभ्याम् < > ङी इति पाभे. । o) पाभे. पृ ४३ j द्र. । p) = ऋषिद्वय-विशेष- । q) पाभे. वैप १ परि.
तै १, ६, २, ४ टि. द्र. ।

माश्रौ ५,२, ८,३७^अ; या १, १६; १४, ३५^क; -^क०मी आश्रौ २, १७, १५××; शाश्रौ; बौश्रौ ७,१६: ४७; आपमं १,८, ५०; या ५,२२; ६,९; १२,३१; -^कग्न्योः शाश्रौ १,९,२; काश्रौ; माश्रौ १,४,२, ६^द; वाश्रौ १,१, ३, ५^द; वैश्रौ ६,९: ६^द.

ऐन्द्राग्न^१- -ग्नः आश्रौ २, १७, १८^१; शाश्रौ; -ग्नम् आश्रौ ३,१०,२७××; शाश्रौ; -ग्नस्य शाश्रौ १, ८, ११××; बौश्रौ; शुअ ३, १६६; -ग्नाः आश्रौ २०,१४,९××; बौश्रौ; -ग्नात् बौश्रौ ५, ६: १०; १७; ८: १६; १८; २९; ३६; २४,९: ४; -ग्नाम बौश्रौ १६, १९: १; -ग्नाय बौश्रौ ७, १५: १४; वाधूश्रौ ३,८६: ८; -ग्ने शाश्रौ १४,१०,१९; बौश्रौ; -ग्नेन बौश्रौ १७,४७: ५; भाश्रौ.

ऐन्द्राग्नी- -ग्नी हिश्रौ ६,६,१०; ऋश्र; -ग्नीम् काश्रु ४७, ११; शुअ १, ४७३; ३, २२४; -ग्न्यः शाश्रौ १२, २, २२; -ग्न्या आश्रौ ६, १६, ५; माश्रौ १,६,२,४; वैश्रौ २, ७: ४; हिश्रौ ६, ६, ९; -ग्न्याः आपश्रौ ६, १६, ७; -ग्न्याम् या १२, ३०.

ऐन्द्राग्न-कुलाय^२- -यः काश्रौ २२, ११, १२^३.

ऐन्द्राग्न-तुष- -वान्^४

आपश्रौ ८, १२, ६; -वैः^५ वैश्रौ ९, ३: १८; हिश्रौ ५, ३, ४८.

ऐन्द्राग्न-दशम^६- -माः वाधूश्रौ ३, ८६: ९; -मान् आपश्रौ २०, १४, १.

ऐन्द्राग्न-धर्मन्^७- -मणिः काश्रौसं ६: ५.

ऐन्द्राग्न-पर्यन्त^८- -न्तानाम् वैश्रौ ८, १०: ७; -न्तानि आपश्रौ ८, ६, ५; भाश्रौ ८, ६, १; ७, ७; -न्तेषु हिश्रौ ५, २, २६, २९; ३९; -न्तैः आपश्रौ ८, ६, २८; वैश्रौ ८, १३: १; हिश्रौ ५, २, ५३.

ऐन्द्राग्न-पशु^९- -शूनि बौश्रौ १६, १९: ११; २३, ११: १५.

ऐन्द्राग्न-वत् आपश्रौ १२, २८, ९; १३, ८, ३; वैश्रौ १६, ९: २; मीसू ३, ३, ४४; ५, ४, २१.

ऐन्द्राग्न-विकार- -राः आपश्रौ २४, ३, ४४; काश्रौसं ५: १८.

ऐन्द्राग्न-वैश्वदेव- -वयोः आपश्रौ २२, २७, ८; हिश्रौ २३, ४, ३७.

ऐन्द्राग्न-वैश्वदेव-काय- -यान् काश्रौ २०, ७, २३.

ऐन्द्राग्न-षष्ठ^{१०}- -ष्ठानि माश्रौ १, ७, ४, ९; -ष्ठैः माश्रौ १७, ४, २१.

ऐन्द्राग्न-स्थान- -ने आश्रौ ९, २, १२.

ऐन्द्राग्न(म-आ)दित्य- -स्ययोः बौश्रौ २, ७: १८; १९; २०, १८: १४.

ऐन्द्राग्न(म-अ)न्त^{११}- -न्तान् वेताश्रौ ९, ६; -न्तानि शाश्रौ ३, १५, १७.

ऐन्द्राग्न(म-आ)युष्य^{१२}- -ग्यम् अश्र ३, ११.

इन्द्राग्नियोः-कुलाय^{१३}- -यः बौश्रौ १८, ३५: १०; -यौ आपश्रौ २२, १३, ७.

इन्द्राग्नियोः-स्तोम^{१४}- -मेन आपश्रौ २२, १३, १०^१.

इन्द्राग्नयोः-कुलाय^{१५}- -यः लाश्रौ ९, ४, २८^१; -यम् शाश्रौ १४, २९, १; -ये काश्रौसं ३०: ८; बौश्रौ २६, ३२: २५७; वेताश्रौ ४०, १; -येन आश्रौ ९, ७, २९; हिश्रौ १७, ५, ३१^१.

इन्द्राग्नयोर्-अयन^{१६}- -नम् आश्रौ १२, ६, १९; निसू १०, १०: १६. इन्द्राग्नयोर् (अयन-) शाश्रौ १३, २९, २४; लाश्रौ १०, १३, ७.

इन्द्राग्नयोर् (एकस्मान्न-पञ्चाश-)^{१७} हिश्रौ १८, ३, ३.

इन्द्राग्नयोः (सत्र-) आपश्रौ २३, १२, ४; हिश्रौ १८, ४, २२.

इन्द्राग्नयोः-स्तोम^{१८}- -मः काश्रौ २२, ११, १४; -मे वेताश्रौ ४०, १; -मेन लाश्रौ ९, ४, ३०.

इन्द्रा(न्द्र-अन)णस^{१९}- -सम् बौश्रौ १५, २२: ६; ८; -सानि बौश्रौ १५, १४: ७; १९: ८;

a) पामे. वैप १, ८२६ n द्र. । b) पामे. वैप १, ८१३ i द्र. । c) पामे. वैप १, ८२७ c द्र. ।

d) पामे. पृ ६०४ v टि. द्र. । e) वैप १ द्र. । f) रौद्रा इति Pw. ? । g) = एकाह-विशेष- । h) सप्र. ऐन्द्राग्नकुलायः <> इन्द्राग्नयोः कुलायः इति पामे. । i) परस्परं पामे. । j) विप. । बस. । k) विप. (सूक्त-) । कस. । l) सप्र. °ग्नियोः स्तोमेन <> °ग्नयोः कुलायेन इति पामे. । m) = सत्र-विशेष- । n) = शकटराज- । षस. समासान्तष टच् प्र. (पा ५, ४, ९४) ।

२२ : ११; वाधुश्री ३, ७६ : ६;
८१ : ३.
इन्द्रातिथि^१ - -यिः वीश्रीप्र २७ :
१०.
इन्द्रा(न्द्र-अ)दि- -दयः अत्र २०,
४७; -दि वैगृ १, १५:५; -दीन्
आमिगृ २, ४, ६ : १४.
इन्द्रादि-दिग्देव- -वान् वैगृ ४,
१० : ८.
इन्द्रादि-बहुदेवता- > °त्य-
-त्यम् अत्र १, २६.
इन्द्रा(न्द्र-अ)दिति-वामदेव-
-वानाम ऋत्र २, ४, १८.
इन्द्रा(न्द्र-अ)न्त- -न्तम् वैगृ १,
१५ : ५.
इन्द्रा-पर्वत- -ः०ता आश्री ८,
१३, २३; शाश्री १०, २१, १४;
आपश्री २१, १२, ९; वाश्री ३,
२, २, ३६; हिश्री १६, ५, ३;
वैताश्री ३४, १; ऋत्र २, ३, ५३;
सात्र १, ३३८; -तौ वृदे ४, ४.
ऐन्द्रापार्वत- -तः ऋत्र २, १,
१३२; शुभ्र १, ५४२.
ऐन्द्रापार्वती- -ती ऋत्र २,
३, ५३; वृदे ४, ११०; सात्र १,
३४०.
इन्द्रा-पूषन्- -०षणा वैताश्री १६,
९; अप ३२, १, ११; अत्र ६,
३; -ण्णोः शाश्री १६, ३, ३२^१;
वृदे ४, ३१.
ऐन्द्रापौष्ण- -ण्णः शाश्री १६,
३, ३१; काश्री १५, २, १४;
वैताश्री ३७, २१; -ण्णम्

आपश्री २०, १३, १२; वीश्री १२,
४ : २८; १५, २३ : ६; २६ : ६;
वाधुश्री ३, ८६ : २; -ण्णस्य
शाश्री ६, ११, १; माश्री ५, २, ७,
१७; वृदे ५, ११८; -ण्णाः वीश्री
१५, २३ : १७; -ण्णेन शाश्री
१५, १२, ३.
ऐन्द्रापौष्णी- -ण्णी साअ
१, १४८; २००.
ःइन्द्रा-बृहस्पति- -तिभ्याम् आश्री
९, ६, २; शाश्री; -ती पागृ २, ६,
२१; कौसू १३३, ३; अत्र २०,
१३^१; शुभ्र २, ४९^१; वृदे ६,
२६^१; -०ती आश्री २, ११,
१९^१; वीश्री १३, ४२:११; -त्योः
वृदे ५, ५.
ऐन्द्रावार्हस्पत्य, त्या- -त्यः
वृदे ६, ११७; -त्यम् आपश्री
१९, २७, २२; वीश्री १३, ४२ :
९; माश्री ५, १, ७, ४८; हिश्री
२२, ६, २८; वैताश्री २२, २१;
३२, ३५; अप्राय ३, ३; ऋत्र
२, ४, ४९; -त्यस्य माश्री ५, १,
९, १४; -त्या ऋत्र २, ८, ९६;
सात्र १, ३२३; अत्र २०, १३७;
-त्याः आपश्री २०, २३, ११;
हिश्री १६, ८, २०, -त्यान् काश्री
२०, ८, ३०; -त्याम् आश्री २,
११, १८; -त्यौ हिश्री १६, ८,
२०.
इन्द्रा-ब्रह्मणस्पति- -ती वृदे ४, ८१;
६, २७.
ऐन्द्राब्राह्मणस्प(त्य >) त्या-

-त्ये ऋत्र २, ७, ९७.
इन्द्रा(न्द्र-अ)भिधान^१-त्व- -त्वात्
मीसू ११, ४, २९.
इन्द्रा(न्द्र-अ)भिग्याहार^१- -रे शाश्री
१४, ३३, २२; ३७, २; ५८, २.
इन्द्रा(न्द्र-अ)भिर्शर्वर-पीत^१- -तस्य
माश्री २, ५, ३, १५.
इन्द्रा(न्द्र-अ)भिहार^१- -रः वीश्री
२४, ९ : ६.
इन्द्रा-मरु- > ऐन्द्रामारुत- -तः
वीश्री १८, २५ : १४; -ताः
आश्री १०, २, २९; काश्री २३,
४, १०; वीश्री १८, ११ : १८.
ऐन्द्रानारुती- -तीः शुभ्र १,
४७७; -तीम् आश्री २ ११,
१३; शुभ्र १, २१४; -त्यौ माश्री
५, १, ७, २३; सात्र २, २०१.
ःइन्द्रा(न्द्र-आ)युध^१- -यम् अप
६२, ४, ३××; -धानि अप ६४,
८, ३.
ःऐन्द्रायुध^१- > °ध- धूत्र-
कृष्ण-नील-पाण्डुर-वर्णका^१-
-काः अप २१, ६, ३.
इन्द्रायुध-प्र(त्य >)ख्या^१-
-ख्या अप ५८^२, ४, ७; -ख्याः
अप ५८^२, २, ६.
ःइन्द्रा-वत्^१- -वतः ऋत्रा ९, २३^१;
-वन्तः तैप्रा ३, ३^१; -वान् वीश्री
१, १५ : २२; तैप्रा ३, ३.
इन्द्रावती- -तीम् तैप्रा ३, ३^१.
ःइन्द्रा-वरुण^१- -णयोः वीश्री १३,
३४ : ७; ऋत्र २, १, १७; ^१वृदे
३, ११९; ^१६, १०; -०णा आश्री

a) = ऋषि-विशेष- । व्यु. ? । b) इन्द्रा बृहती इति पाठः? यनि. शोधः । c) पामे. वैप १, ८२८ f
द्र. । d) उस. उप. कर्तरि ह्युट् प्र. । e) विप. (निविद्धान-). । बस. उप. भाप. वा उस. उप. कर्तरि अण् प्र.
वा । f) कस. > तृस. । g) पृ ४६ h) द्र. । h) = इन्द्र-धनुस्- । षस. । i) तस्येदमीयः अण् प्र. । j) विप. ।
कस. उप. द्रस. > बस. । अतान्तवेऽपि हृद्भावः उसं. (पा ७, ३, ४५) । k) विप. । बस. । l) वैप १ द्र. ।
m) वैप १, ८२८ i) द्र. । n) पामे. वैप १, ८२५ ० द्र. ।

५,५,१९; ६, १, २; शांश्री ८, २, ६; ९, २, ४^० × ×; १४, ३५, २^०; आपश्री; -णाम्याम् आश्री ९, ६, २; शांश्री ११, २, १३; काश्री १०, ७, १०; आपश्री १४, १, ९; बौश्री ११, १३ : १० × ×; माश्री २, ५, ३, १; वैश्री १७, १ : ५; हिश्री ९, ७, १२; -णौ आपश्री १९, २५, ८; बौश्री १३, ३४ : ८; माश्री ५, २, १, ३; हिश्री २२, ५, १९.

ऐन्द्रावरुण^० -णः वृदे ४, १२४; -णम् आपश्री १९, २५, १; हिश्री २२, ५, १५; अप्राय ३, ३; ऋअ २, १, १७; ४, ४१; ६, ६८; ७, ८२; ८, ५९; वृदे ३, ६६; ५, १२१; -णाः वैताश्री ३७, ८; -णे वृदे ५, ३.

ऐन्द्रावरुणी- -णीम् आपश्री १९, २५, १; बौश्री १३, ३३ : ७; हिश्री २२, ५, १६.

ऐन्द्रावरुण-बाईस्पत्य-पौष्ण-सावित्र-सौम्य-मैत्रा-वरुण- -णाः ऋअ २, ३, ६२.

ऐन्द्रावारुण- -णाः आपश्री २०, २३, ११.

ऐन्द्रावारुणी- -णी शुअ १, ५२५.

इन्द्रावरुणा(ण-अ)भिव्याहार^०- -रे शांश्री १४, ३५, २.

इन्द्रा(न्द्र-अ)वसिक- -क्काः बौध ३, ३, ४; ५.

इन्द्रा-वायु^d- > ऐन्द्रावाय(व्य>)

व्या- -व्ये साअ २, ९७९; ९८०.

इन्द्रा-विश्वदेव-> ऐन्द्रावैश्वदेव- -वाः हिश्री १६, ८, २०.

इन्द्रा-विष्णु^b- -ष्णुः^० शांश्री १४, ३७, १; -ः ऋअम्याम् आश्री ९, ६, २; शांश्री ११, २, १३; काश्री १०, ७, १०; आपश्री १४, १, ९; १८, ८; बौश्री ११, १३ : ११; १३, ४१ : ५ × ×; माश्री; -ष्णु शांश्री १४, ७१, २; वृदे ४, २०; साअ २, ३६६; -ः ऋअम्याम् आश्री ५, ५, १९; ६, १, २; शांश्री ८, २, १०; ९, ४, ७; माश्री ५, २, ५, १७; या ११, ८.

ऐन्द्रावैष्णव^b- -वः शांश्री १५, १६, ३; काश्री १५, २, १२; ७, ३०; -वम् काश्री २५, १३, ३; आपश्री १४, १८, ७; १९, २७, १६; बौश्री १२, ४ : २५; माश्री; -वस्य शांश्री ६, ११, ३; -वाः शांश्री १६, ९, ३२; आपश्री २०, २३, ११; बौश्री २६, ९ : १८; हिश्री १६, ८, २०; -वान् काश्री २०, ८, ३०; माश्री ५, २, ५, ४.

ऐन्द्रावैष्णवी- -वी शांश्री १३, ७-९, ४; १२, ६; -वीभिः शांश्री १३, ७-९, ३; १२, ५; आपश्री १४, २३, १२; हिश्री १५, ५, ९; -वीम् वैश्री २०, ३४ : ६; -व्या आश्री ६, ७, ४. इन्द्राविष्णोर-उत्कान्ति^a- -न्तिना आश्री ९, ७, ३४.

इन्द्रा(न्द्र-अ)अय^b- -यः वृदे १,

१२२.

इन्द्रा(न्द्र-अ)इव^b- -इवौ ऋअ २, ४, ३२.

इन्द्रा-सूर्य^b- > ऐन्द्रासूर^b- -राः बौश्री १५, २३ : १४; २८ : २०.

इन्द्रा-सोम^b- -ः ऋअ २, ६, ७२; ७, १०४; अअ ८, ४; या ६, ११; -मौ वृदे २, १०७; ४, ८४; ५, १२२; ९, १२; या ६, ११.

ऐन्द्रासोम- -मम् वृदे ६, २७.

ऐन्द्रासोमी- -मी वृदे ६, ३१.

ऐन्द्रासौम- -मम् ऋअ २, ४, २८^b; ६, ७२; ७, १०४.

ऐन्द्रासौम्य- -म्यः काश्री १५, २, १५¹.

ऐन्द्रासौमी- -मी ऋअ २, २, ३०; १०, ८९; साअ २, ३५१^०.

इन्द्रासोमीय^b- -यः वाश्री ३, ३, १, ३०; -यम् बौश्री १२, ४ : २७.

इन्द्रिय^b- पावाण ४, २, ३७^०; -ः ऋअ आपश्री २०, १३, ४; वाश्री ३, ४, ३, १; हिश्री १४, ३, १०;

-यम् ऋअश्री ५, १३, ६; ८, ७, २४; ऋअश्री ४, ९, १;

७, १६, ८; ८, १०, १; १०, ११, ७; काश्री; निघ २, १०^०;

पा ५, २, ९३; -यस्य बौश्री १४, ४ : ४५^०;

लाश्री २, १, २; -याणाम् विध ७२, २; या ३, १२; १०, २६; १४, १३^०; १९;

मीस् १, १, ४; -याणि ऋअश्री १३, ११ : ४; ११; ३५ : १०; १९,

a) पामे. वैप १, ८२८। द्र.। b) वैप १ द्र.। c) पृ ४६ h द्र.। d) द्रस. आनः प्रतिप्रसवः

उसं. (पावा ६, ३, २६)। e) इन्द्रसहचरितो विष्णुरिति कृत्वा मलो. कस. (वैतु. C. इन्द्रः, वि इति, यद्वा ष्णु इति कल्पुः ?)। f) = एकाह-विशेष-। g) विप.। बस.। h) षस.। i) पामे. वैप १, ८२९ g द्र.। j) तु. सा ऋ ७, १०४। k) 'सो' इति षड्गुरुशिष्यः। l) तु. चौसं. Web. च; वैतु. कासं. 'मः इति। m) ह् इति पाठः ? यनि. शोधः। n) तु. पाका.।

१० : ४५; वैश्रौ; या ३, १२;
 ४, १३; १०, २६; १२, ३७; ३८;
 १३, ११^२; १४, १३^२; १५^२;
 १९; २१^२; २५; -फ़याय आश्रौ
 २, १८, १९; ९, ५, १६; शाश्रौ
 ७, ५, १३××; १५, १५, १३^२;
 वैताश्रौ ३०, १२^२; पागृ २,
 ६, २३; -ये बौश्रौ ५, ८ : ३१;
 वाधूश्रौ ४, १०५ : ४; -फ़येण
 काश्रौ १५, ६, २०; आपश्रौ
 ५, ११, ७; ९, १४, १^०××;
 बौश्रौ; द्राश्रौ १३, ४, ८^२;
 लाश्रौ ५, ४, १५^२; -फ़येभ्यः
 बौश्रौ ७, ५ : ४१; ६ : २५;
 माश्रौ २, ३, १८; वैगृ ५, ३ :
 २०; -येषु वैश्रौ १८, ४ : ४;
 -यैः गोगृ ३, ३, ३२; द्रागृ २,
 ५, ३५^१; अप ५८^२, १, ३; वाध
 ३०, ५^१; आपध १, २३, २;
 हिध १, ६, १०; वृदे ४, ४०.
 इन्द्रिय-काम- -मः काश्रौ ४,
 १५, २३; आपश्रौ २२, २७, १३;
 बौश्रौ १३, २९ : १; हिश्रौ २३,
 ४, ३९; -मम् बौगृ २, ५, ५;
 आपध १, १, २५; हिध १, १,
 २३; -मस्य आपश्रौ ६, १५, १;
 १४, ६, १०; बौश्रौ १७, १२ :
 ८; १८, १४ : ११; २६, २३ :
 १०; भाश्रौ; -माः आपश्रौ २१,
 १, १४; २३, ५, १२; हिश्रौ १६,
 १, ११.
 इन्द्रिय-ग्राम- पावा ४, २, ३७.
 इन्द्रिय-दौर्बल्य- -स्यात् आपध

२, १०, १२; २७, ४; हिध २, ४,
 १२; ५, २२३.
 इन्द्रिय-नित्य- -स्यम् या १, १.
 इन्द्रिय-प्रीत्य(ति-अ)र्थ- -र्थस्य
 आपध २, १०, ३; हिध २,
 ४, ३.
 इन्द्रिय-मोचन- -नम् गोगृ ३,
 १, २४.
 इन्द्रिय-वत्- -वान् माश्रौ १,
 ४, २, ६^२; १५^२; वाश्रौ १, १, ३,
 १; ५^२.
 †इन्द्रियवती- -तीम् वाश्रौ
 १, ५, ४, २२; हिश्रौ ६, ६,
 २४.
 इन्द्रिय-संयत- -तः वागृ ६,
 १५.
 इन्द्रिय-संयम- -मः विध २,
 १६.
 इन्द्रिय-संसर्ग- -गम् वाध १०,
 २८.
 इन्द्रिय-हन्- -हा पागृ २, ६,
 १०.
 इन्द्रिया(य-अ)तीत- -ताः विध
 २६, १६.
 इन्द्रिया(य-अ)र्थ- -र्थम् वाध
 ३०, ५^१; -र्थस्य अप ६८, १,
 ५१; -थान् शंघ ११६ : २३;
 -थेन अप ६८, १, ५१; -थेषु
 वैगृ ५, १ : १३.
 †इन्द्रि (य>) या-वत्- पा
 ६, ३, १३१^१; -वत् बौश्रौ
 १८, १६ : १०; -वतः काश्रौ
 २५, १२, ५; आपश्रौ ४, १०,

१^२××; बौश्रौ; हिश्रौ ६, ४, ४२^२;
 -वते आपश्रौ ३, १५, ८;
 बोश्रौ १३, ११ : २; ९; ३५ :
 ७; तैप्रा ३, ५; -वन्तः^२ आपश्रौ
 १२, १७, १८; बौश्रौ १४, ९ :
 ३६; वैश्रौ १५, २० : ७; हिश्रौ
 १०, ४, २१; वैताश्रौ १७,
 ८; -वान् आपश्रौ १४, १८, १;
 बोश्रौ ६, ९ : ९; ७, ३ : १४;
 १८, १७ : २१; २१, १० : २६;
 माश्रौ ३, ६, १५; आपमं २, २१,
 १७^१; पागृ ३, १४, ६^१; अप्राय
 ६, २; शुप्रा ३, ९७.
 †इन्द्रियावती- -तीम्
 आपश्रौ ६, २०, २^२.
 †इन्द्रि (य>) या-विन्- -वी
 आपश्रौ ४, १०, १^०; बौश्रौ ३,
 १८ : १७^०; १८; २७, १४ : ३,
 भाश्रौ ४, १४, ६^०; ७, वैश्रौ ६;
 ९ : ६^०; हिश्रौ ६, ४, ४२^२.
 इन्द्रो(न्द्र-उ)त^१- -तः शाश्रौ १६,
 ७, ७; ८, २७.
 ऐन्द्रोत- -०त निस् ४, ११ :
 २१^१.
 इन्द्रो (न्द्र-उ) त्तर- -रम् शुप्रा २,
 २१.
 इन्द्रो(न्द्र-उ)स्सव- -वे अप १८^२,
 १९, २.
 इन्द्रो(न्द्र-उ)लूखल- -लयोः वृदे ३,
 १००.
 इन्द्र-ग्रह- इन्द्रा प्रमृ. इन्द्र-द्र.
 इन्द्राटक^१- -रुः अप १९, १, १३.
 इन्द्रातिथि- इन्द्र-द्र.

- a) पामे. वैप १, ८३० f द्र. । b) पामे. वैप १, १३०३ m द्र. । c) पामे. वैप १, ८३१
 i द्र. । d) पामे. वैप १ पञ्चमान् तै १, ६, ४, १ टि. द्र. । e) पामे. वैप १ मधुमतीम् शौ १६, २, २ टि. द्र. ।
 f) विप. । बस. निष्ठान्तस्य परनिपातः । g) पामे. वैप १ परि. इन्द्रागिन्योः तै १, ६, २, ४ टि. द्र. । h) पामे.
 वैप १, ८२५ d द्र. । i) पामे. वैप १, ८३१ h द्र. । j) 'बवा' इति पाठः ? यनि. श्लोचः (तु. पामे.) ।
 k) वैप १ द्र. । l) अर्थः व्यु. च ? ।

इन्द्राहश^{१०} - (> ऐन्द्राहश- पा.)
पाग ४, ३, १५२^०.
?इन्द्राम^१ गोष्ठ ४, ८, २४; द्रागृ ४,
३, ९.
इन्द्रायुध- प्रभृ. इन्द्र- द्र.
इन्द्रायुध^{१०} - (> ऐन्द्रायुध-
पा.) पाग ४, ३, १५२.
इन्द्रालिश^{१०} - (> ऐन्द्रालिश-
पा.) पाग ४, ३, १५२.
इन्द्रावत्- प्रभृ. इन्द्र- द्र.
इन्द्रावसान^{१०} - (> ऐन्द्रावसान-
पा.) पाग ४, १, ८६.
?इन्द्रावाणीची^१ कौष्ठ १, १६, १८.
इन्द्रावायु- इन्द्र- द्र.
इन्द्राविश- (> ऐन्द्राविश-)
इन्द्राहश- टि. द्र.
इन्द्राविश्वदेव- प्रभृ. इन्द्र- द्र.
इन्द्रासिष- (> ऐन्द्रासिष-)
इन्द्रालिश- टि. द्र.
इन्द्रिय- प्रभृ. इन्द्र- द्र.
?इन्द्रोपानस्या, क^१ आपश्रौ ३, १०,
२१; भाश्रौ ३, ११, ११^१; वाश्रौ
१, ३, ७, १३^१; हिश्रौ २, ५,
४४^१.
✓इन्ध्, इन्ध- ✓इध्, न्ध् द्र.
इन्ध^१ - (> ऐन्धायन- पा.) पाग
४, १, ९९.
इन्धन- प्रभृ. ✓इध्, न्ध् द्र.
इन्धूक^१ - कस्य चाश्र ४० : १०.

✓इन्ध्, पाधा. भ्वा. पर. व्याप्तौ,
इन्वति निघ २, १४; १८;
इन्वसि ऋप्रा ८, ४४.
इन्व(क>)का^१ - काभिः आपगृ २,
१६; भागृ १, १२ : १६; -कासु
अप १, ६, ५.
इन्वका-शब्द^१ - ऋदः आपगृ ३,
४४.
इन्वान- ✓इ द्र.
इभ^१ - पाठ ३, १५३^१; पाग ५, १,
६६^०; -भाय या १४, २६^१;
-भेन या ६, १२^१.
इभ्य- पा ५, १, ६६.
?इभ्यप्रचोदित- तम् चाश्र १६:२२
इम- इम-था इदम्- द्र.
इम->०म-कान्त^१ - (> ऐमकान्तक-
पा) पाग ४, २, १२७.
इमस् (> ✓इमस्य पा.) पाग ३, १, २७^१
✓इयक्ष ✓यज् द्र.
इयध्वै ✓इ द्र.
इयम् इदम्- द्र.
इयस् (> ✓इयस्य पा.) पाग ३, १,
२७^१.
इयान, ना- ✓इ द्र.
इयान्ति इदम्- द्र.
✓इर (वधा.)^१, पाग ३, १, २७^१;
इरन्ति या ५, २७.
इर^१ - ऋरम् आपश्रौ १, १६, ८;
भाश्रौ १, १८, ६; हिश्रौ १,

४, ५४; ईः जैष्ठ १, २१:१७^०.
इहरा^१ - पाठ २, २८^१; पावाय
८, २, १८^१; -रया माश्रौ २,
५, ४, २४^१; -ऋ आपश्रौ
२, ११, ३; बौश्रौ १, १४:
१८; १७, १९ : १; भाश्रौ २,
११, १; माश्रौ १, २, ६, २३;
वाश्रौ १, ३, ३, २७; वैश्रौ ५, ८ :
११; हिश्रौ १, ८, २६; आश्रिष्ट
३, ८, २ : १७; बौषि १, १५:
२६; अश्र १५, २; निघ २, ७;
-राः बौश्रौ ३, ९ : २१^१; -राम्
आश्रौ २, ५, १७^१; शाश्रौ; या
१०, ८^१.
इेर^१ - रम् द्राश्रौ ६,
१, ११; लाश्रौ २, ९, ७.
इरं-मद^१ - पा ३, २, ३७^१.
इरंमद- ऋः ऋअ २,
१०, १४६.
इरा-भृत् - भृत्वा या ६,
१२^१.
?इरा-वत् - वन्तः हिश्रौ
६, ७, ८; कागृ २७, ३; दिगृ
१, २९, १; -वान् कौसू २०, ६.
इरावती^१ - ऋती आश्रौ
३, ८, १^१; शाश्रौ १५, १७, १७^१;
काश्रौ ८, ३, ३०^१; आपश्रौ ११,
७, १^१; बौश्रौ ६, २४ : ३४^१;
माश्रौ २, २, २, १८^१; वैश्रौ १४,

a) अर्थः व्यु. च ? । b) = वनस्यति-विशेष- इति पागम. । c) इन्द्राविश- इति पागम. । d) पाठः
(तु. भंवा २, ६, १२)? इन्द्रः मे इति द्वि-पदः शोधः (वैतु. अन्ये अन्यथा व्याख्यायुक्ताः) । e) = जलौका-विशेष-
इति वैद्यकशब्द-सिन्धुः । f) इन्द्रासिष- इति [पञ्च] भागडा. । g) = वाहीक्याम-विशेष- इति पागम. । h) पाठः? ।
शागृ १, २४, १० मन्द्रा वाणी वाणीची इति पाभे. । i) पाठः? । इन्द्र, उपा^० इति द्वे पदे इति c. । j) सपा.
?इन्द्रोपानस्य [भाश्रौ] <> ?इन्द्रोपानस्यक <> ?इन्द्रोपानस्यक इति पाभे. । k) = ऋषि-विशेष- । व्यु. ? ।
l) वैप १ द्र. । m) मलो. कस. । n) < ✓इ इति । o) = धन- इति पागम. । p) तु. पागम. ।
q) वैप १ द्र. । या ५, ३७ परामृष्टः द्र. । r) धा. ईर्ध्यायां वृत्तिः । s) = इह- । t) = अश्र- ।
u) = अश्र- (तु. पागम.) । v) पाभे. वैप १, ८३३ h द्र. । w) = ऋषि-विशेष- । x) = मेघ-ज्योतिस्- ।
y) चला इति काचित्कः पाभे. । z) विप., नाप. । a^१) पाभे. वैप १, ८३३ n द्र. । b^१) वैतु. टीकाकारः स १ इति ।
वैप १-प्र-०७

५:२१^a; हिश्रौ ७,५,९^a; आपमं
२, १५, ३^b; कौघ ३, २, १;
आमिघ २, ७, ७:१८^a; शुअ
१, ३१९^a; -फ़ती: आपश्रौ
४, ८, २; १०, १७, ११^c;
बौश्रौ २८, ९:८^c; भाश्रौ ४,
११,४; १०,१०,१५^c; हिश्रौ ६,
२,१७^c; १०, २, ५८^c; -तीम्
आय २, ८, १६^b; कौघ ३, २,
६^b; या ९, २६^d; -फ़त्य:
अप ४८, ७६; निघ १, १३;
-त्याम् विघ ८५,४९^d.

इरावती-प्रभृति-

-ति तैप्रा ४,२२.

१इरावत^e- पाग २, ४,

३१; -तम् शंघ ११६:१५.

ऐरावती^f- ती अशां

१६, १; -तीम् अशां १७, ५;

-त्याम् अशां १८, ८; १९, ८.

२इरावत^g-> २ऐरावत^h-

-०न आपमं २, १७, १०^f; -त:

बौश्रौ १७, १८:१; आपमं २,

१७, ९^f; बौघ ३, १०, ६; ऋअ

२, १०, ७६.

✓ईर्य पा ३,१,२७.

इरज्जⁱ- पाग ३,१,२७.

✓इरज्य^j पा ३,१,२७; †इरज्यति

अप ४८, १०^g; २१^g; निघ २,

२१; ३,५.

†इरज्यत्-ज्यन्तम् ऋप्रा १८,

१७; -ज्यन्ता कौसू ५,२.

इरध्- इरस्^k- (> ✓इरध्य,
✓इरस्य पा.) पाग ३,१,२७.

इइरा- ✓इइ द्र.

२इरा^l->२ऐर^m->ऐर-वत् मीसू
९,४,१९; १२,३,२०.

१-२इरा-वत्- ✓इइ द्र.

†इराविण: अप ४८,११५.

इरिकाⁿ->का-वन-पावा ८,४,६.

इरिण^o- पाउ २, ५१; -णम् बौश्रौ

१०, २२:११; १२, १:१५;

४:१२; २६, २८:५; या ९,

८; -णस्य हिपि १:५; -णात्

आय १, ५, ५; काय १४, ५;

-णे काश्रौ १५,१,८^k; आपश्रौ

५,२५,९; १४, १३, १४; १६,

१५, ८; १८, ८-९, १७; बौश्रौ

१४, १८:१२; भाश्रौ ५, १६,

२२; माश्रौ १,५,६,१७; ६, १,

५,१६; वाश्रौ १, ४,३,४२; २,

१,४,२३; ३,३,१,७; १८; ३६;

वैश्रौ १,१८:५; १८,१३:९;

हिश्रौ ३,८,२१; ६,५,२८; १०,

७,१६; ११, ६,५; १३,३,१९;

३४; माय २, १, १०; १६, १;

१७, ४; कौसू ३९, २५; या ९,

८^k।

इरिण-लोष्ठ- छम् माय १,७,९;

१०.

इरिबिठि^p- फ़ठि: ऋअ २, ८, १६;

साअ १, १०२; १४४; १५९;

१९१; २७५; ३९७; अअ २०,

३; ४४; ४६.

इकुट- (> पिन-) इकट- टि. द्र.

इगोल^q- (> लीय-, लंय- पा.)
पाग ५,१,४.

✓इल्^r पाधा. तुदा. पर.स्वप्रक्षेपणयो:
चुरा. पर. प्रेरणे.

✓इल्^s पाग ३,१,२७.

इल-,इला-, इलान्द, न्दा-, इलास-,

इला-बिलशय- ✓इइ द्र.

†इलीबिश^t- -श: अप ४८, ११५;

निघ ४,३; -शस्य या ६, १९;

उसू २,१.

†इलुवर्द^u- -र्द: बौश्रौ २६,११:१८;

-र्दाय^v आपश्रौ २०, २१, ६;

बौश्रौ १५,३५:६; २६, ११:

१७.

इल्^w-> ऐल्ल- ऋअ २,१०,३०;

साअ १,४३८.

ऐल्ली->ऐल्ली-पुत्र- -त्रस्य

चाअ १९:१३.

इलोदन- ✓इइ द्र.

इल्कस- (> °सिन्-) इकस- टि. द्र.

इल्वल- पाउ ४,१०७.

इव^x आश्रौ १, ३,६××; कौसू ४७,

५२^f; निघ ३,१३^f; या १,

९^f; ११, ३६; १३, ५^f; पा

५, १,११६; पाग १,४,५७.

इव- -व: या ९, ३०^b;

-वात् शौच १, ८२; पा ५, ३,

७०; -वे ऋप्रा २, ५५; ऋत

४, १, ४; शौच ४, ४१; पा ५,

a) पाभे. वैप १,८३३ n द्र.।

b) पाभे. पृ ६९ b द्र.।

c) पाभे. वैप १, ८३३ o द्र.।

d) = नदी-विशेष-। e) = इन्द्रगज- [तु. पागम.]। तत्रभवीय: अण् प्र. (तु. अभा.)। f) = शान्ति-विशेष-। सा-

उस्यदेवतीये अणि प्र. कृते ली. द्र.। g) वैप १ द्र.। h) = गिरा-। आयक्षर-विकार: द्र.। i) स्वार्थिक: अण् प्र.।

j) अर्थ: व्यु. च ?। = ओषधि-विशेष- इति पासि.। k) ई^o इति पाठ: ? यनि. शोध: (तु. चौसं. web. च)।

l) = [मन्त्र-द्रष्टृ-] ऋषि-विशेष-। व्यु. ?। m) अर्थ: व्यु. च ?। n) पा ३,१,५१ परामृष्ट: द्र.। o) = संवत्सर-।

व्यु. ?। <इदानीं + ✓भि इति भा (तैप्रा ३, ८, २०, ५)। p) पाभे. वैप १ परि. अलिखन्नुाय काठ ५२, १ टि. द्र.।

q) = पुरुष-विशेष-। व्यु. ?। r) पाभे. वैप १,८३७ b द्र.। s) परिभयार्थे द्र.।

३,९६; -वेन पावा २,१,४.
 इव-कार- > रा (र-आ)ओडिता-
 (त-अ)यन- -नेषु शुभा ५,१८.
 इवा(व-अ)थे- -थे पावा ३,२,६०.
 ✓इष् (इच्छायाम्) ✓इच्छ द.
 ✓इष् (वधा.)^{a,b}, पाधा. दिवा. पर.
 गतौ; कया. पर. आभीक्षर्ये,
 ऋह्व्यामि ऋञ्च २,८, ९६; अञ्च
 २०, १३७; ऋह्व्य आश्रौ ५,
 १,१; शाश्रौ ६,७,१; काश्रौ ९,
 ३,३; आपश्रौ १२,५, २; बौश्रौ
 ७,३ : ७; माश्रौ २, ३, २, ९;
 वैश्रौ १५, ५ : ६; हिश्रौ ८, १,
 ५८.
 इपति निघ २,१४फं.
 ऐषीः शाश्रौ ६,७,८फं.
 इषण- > ✓इषण्य^a, इषण्यसि
 ऋप्रा ८,४७फं.
 ऋषित- -तः आपश्रौ १५,१९,४;
 छुस् १, ६ : १२; माय २, १७,
 १^२; अञ्च १२, २; या ८, ८फं;
 १४; -तम् अप १^२,१,५; ऋप्रा
 २,७१; -ताः काश्रौ ३, ६, २;
 आपश्रौ ३, ६, ५; बौश्रौ १,१९ :
 २३; माश्रौ ३, ५, १६; माश्रौ
 १,३,४, १२; वाश्रौ १,३,६,७;
 वैश्रौ ७,६ : ४; हिश्रौ २,४,२०.
 इषित-से(ना)>न- -नस्य या
 २,११.
 ऋह्वणत्- -ण्णता^a आपश्रौ ४,५,२;
 बौश्रौ १, ११ : ४२; माश्रौ
 ४,६,५; हिश्रौ ६,२,३; -ण्णन्
 अञ्च ११,५.

ह्वम्^a- पाउ १,१४५.
 ऋह्विन्^a- -दिमिणः निघ ४,१;
 या ४,१६.
 ह्व्यत्- -ऋव्यन् शाश्रौ १७,१७,१;
 या ६,२०; -व्यन्तः हिश्रौ २४,
 १,५.
 ह्व्यन्ती- -न्तीम् शाश्रौ १७,
 १७,१फं.
 एषणा- पात्रा ३,३,१०७.
 एषणिन्- -णिनः या ४,१६.
 ऋह्वष्- हवः आश्रौ १,६,५××; शाश्रौ;
 इषम् आश्रौ २, १८, १३××;
 काश्रौ; द्राश्रौ ९, १, १६^०;
 लाश्रौ ३, ५, १५^०; निघ २,
 ७; या ६, २६फं; २९; ९,
 ४३फं; ११, २९\$फं; उम् ८,
 ३०; इवा आश्रौ ५, ७, ३; ६,
 ७, ५; शाश्रौ; या १०,२६फं;
 ११, १४फं; इषि आपश्रौ १६,
 ३०, १; वैश्रौ १८, २० : ४६;
 हिश्रौ ११, ८, ४; इषे^a आपश्रौ
 १०, २२, १२××; वैश्रौ १२,
 १६ : १६; हिश्रौ १५, ७, २३;
 आपमं १, ३, ७; पाय १,८,१;
 आमिण् १, ५,४ : ४२^१; आपय
 ४,१५; काय २५,४२; बौय १,
 १, २८; माय १,१७ : १; माय
 १,११,१८; वाय १४, २३; वैय
 ३,४ : ७; हिय १,२१, १; गोय
 २,२,१०; द्राय १,३,२६.
 ह्वेत्वा^b(>ह्वेत्वक- पा.) पाग ५,
 २,६२.
 इह्व^a-> ✓इषि^a, इषयध्वम् आश्रौ

५,७,३; शाश्रौ ७,६,३.
 इषय(त्>)न्ती- -न्ती आश्रौ
 ४,१२,२फं.
 रऋह्व- -व्य बौश्रौ ४, ३ : ३९^१;
 -वः काश्रौ १७, ९, ७^१; आपश्रौ
 १३, १६, ८^१; बौश्रौ १०, ४० :
 ३^१; हिश्रौ १०, ५, १२^१; १२, १,
 १२^१; आपमं^१ १, १०, ८; २, १५,
 ८; आमिण् १, ७, ४ : १०^१;
 बौय २, १०, ५^१; वैय ४, ८ : ६^१;
 शुञ्च २, १९५;^१ -वस्य^१ आपश्रौ
 १३, १६, ८; हिश्रौ १०, ५, १३;
 -वाय^१ बौश्रौ ७, १६ : २०;
 माश्रौ ८, ९, ८; -वे वाध ६, ५^१.
 ऋह्व-वत्^a- -वान् या १०, ४२फं.
 इह्व^१- -वः ऋञ्च २, ५, ७; शुञ्च २,
 २३२; -वाय शाश्रौ १२, १४,
 ३^१फं.
 इषण- ✓इष् (वधा.) द.
 इषा^a माश्रौ ३,६,१७.
 इषित- ✓इष् (वधा.) द.
 ऋह्विर,रा^a- पाउ १, ५१; -रः
 आपश्रौ ३,१५,५; आमिण् १,५,
 २ : ४७; वैय १,१८ : ६; -रम्
 शांय ६, ४, १^०; कौस् ९५, ३;
 १२८,२; -रस्य निस् २, ११ :
 ३०; -रा अप ४, ४, १; ५, ७;
 अञ्च १९, ४९; -राः कौस् १०३,
 २; -रेण निघ ४, १फं; या ४,
 ७फं.
 ऐविर^०- -रम् निस् २, २ : १८.
 इषी(क>)का^a- पाउ ४, २१; -कया
 काठश्रौ ४०; द्राश्रौ ११, १, ७;

a) वैप १ द.। b) या ९,८ परामृष्टः द.। c) पाभे. वैप १ अवेः (<✓विद् [ज्ञाने]) तै ६,४,३,
 ४ टि. द.। d) धा. अर्थः?। e) पाभे. वैप १, १०९० d द.। f) पाभे. वैप १, ८४०। द.। g) पाभे.
 वैप १, ८४२ j द.। h) <व्भे, स्वा इति। i) व्यु. पाभे. च वैप १, ८४२ j द.। j) वैप १, ८४३ a द.। k)
 वैप १, ८४३ b द.। l) = ऋषि-विशेष-। व्यु. ?। m) वैप १, ८४३ d द.। n) पाभे. वैप १ परि. १दृतिङ्->
 -द्रम् तै ३,१,१,२ टि. द.। o) = साम-विशेष-। व्यु. ?।

लाश्रौ ४, १, ७; या ९, ८; -का
या ९, ८; ङ; -का: माण्ड १, ११,
७; कौसू १५, १८; ३३, २;
-काणाम् कौसू २६, २६;
-काम् कौसू ७१, ५; अप १,
९, ८; अअ १२, २; -के कौसू
३४, १०.

ऐषीक^१ - क: बौश्रौ १५, १ :
१६; वाधूश्रौ ३, ६९ : ३९; -कम्
आपश्रौ २०, ३, १६; ४, ५;
बौश्रौ ५, ५ : ५; १८; ८ : ५; १५,
६ : ५; २१, २ : २१; भाश्रौ १,
२२, १; हिश्रौ १४, १, ३७; बौध
२, ७, १५; -के आपश्रौ ८, ६,
२३; बौश्रौ ५, ७ : ९; भाश्रौ
८, ८, ७; वैश्रौ ८, १२ : ४; हिश्रौ
५, २, ४८; -केण बौश्रौ १५, ६ :
९; कौसू ७६, ५.

ऐषीकी - की हिश्रौ ७, ५,
२५; -कीम् काश्रौ ८, ३, २३.

इषीक-तूल - पा ६, ३, ६५.

इषीका(का-अ)ङि-मण्डक^२ - कम्
कौसू ३२, १७; ४०, ४; ४८, ४०.

इषीरथ^३ - > ऐषीरथि- थि: ऋअ
२, ३, १.

इषु^४ - पाउ १, १३; पाग ५, ४, ३;
-षव: शाश्रौ ४, २०, ११; हिश्रौ
२१, १, ११; ऋआपमं २, १७, ७;
२०-२५; अप; या ५, ४; ७, ४, ९,
१६; १९; १०, २९; -ऋषु:
शाश्रौ १२, १४, ५; काश्रौ २२,
५, ३०; आपश्रौ १७, २०,

१४; बौश्रौ १८, ३६ : १२; १२;
माश्रौ ६, १, ८, १४; वाश्रौ;
निघ ५, ३; या ९, १८; १८;
-षुणा लाश्रौ ९, ४, ३६;
-षुभ्याम् लाश्रौ ६, २, ७; -षुम्
आपश्रौ १८, ३, १४; २२, ७,
१७; बौश्रौ १०, २३ : २५;
२४ : ४x४; हिश्रौ १७, ३, १६;
या ९, १८; १०, २९; -षू: काश्रौ
१५, ५, २०; माश्रौ ५, १, ९, ३२;
अअ २, ६, ७५; -षूणाम् माश्रौ
५, १, ९, १८; या ९, १३; -षूल्
शाश्रौ १७, ५, २; १५, ३; आपश्रौ
१८, १७, ७; बौश्रौ १२, ९ : ३;
२३; वाश्रौ; या २, ६; ९, १४;
१७; -षो: लाश्रौ ६, २, ७;
निसू ७, १ : १५; -षी शाश्रौ
१४, २२, ७; -ष्वा: अअ ५,
१४.

इषु-क- पा ५, ४, ३.

इषु-कार^५ - > ऐषुकारि- (> ऐषु-
कारि-भक्त^६ - पा) पाग ४, २,
५४.

इषु-क्षेप- षेषु वाश्रौ ३, १, १,
३५.

इषु-चारिन्- -रिण: वाध १४, १४.

इषु-जित^७ - -तम् वाधूश्रौ ३, ६९ :
१८; -तात् बौश्रौ १५, ३, १० : ७.

इषु-देवता- > ष्व (त्य >) ष्या-
स्या शुअ २, २८६.

इषु-धि^८ - -धि: बृदे १, ११०; निघ
५, ३; या ९, १३; १४.

-धिम् आपश्रौ २०, १६, ८;
वाश्रौ ३, ४, ३, ३२; हिश्रौ १४,
३, ३१; आपमं १, १२, ९; आण्ड
१, १३, ६; ३, १२, ७; कौण्ड १,
१२, ६; शाण्ड १, १९, ६; हिण्ड
१, २५, १; ऋअ २, ६, ७५; बृदे
५, १३०.

ऋइषुधि-मत् - -मते आपमं २,
१८, ४६; भाण्ड २, १० : ५;
हिण्ड २, ९, ६.

इषु-नामन्- -म या २, ६.

इषु-पर्ययण^९ - -णानि कौसू १४,
१२.

इषु-प्रतोद- -दयो: बौण्ड १, ७, १०.

इषु-प्रग्याध^{१०} - -धान् काश्रौ १४,
३, १६.

इषु-मात्र- -त्रम् वाण्ड १, ७; -त्राण्ड
बौण्ड १, ४, २३; आपध १, १५,
१९; हिण्ड १, ४, ७८.

इषुमात्री- -त्रीम् काश्रौ
१६, ३, २४; आपश्रौ १६, ४, ८.

इषुमात्रा(त्र-अ)वर^{११} - -रम् आण्ड
१, ३, १.

इषुर-इष्टि^{१२} - -ष्टि: काश्रौ २२, १०,
२३.

इषु-वज्र- -ज्रयो: आश्रौ ९, ८, १९;
-ज्रौ शाश्रौ १४, २२, ४.

इषु-स्तुति^{१३} - -तौ या २, ५.

इषु-स्यकरा^{१४} (र-अ)अन-कुष्ठ-मदुष^{१५}-
१रेष्मथितवृण^{१६} - -णम् कौसू
३५, २१.

इषु-हल- -तस्य आपश्रौ १६, ६, २;

a) विप. । तस्यविकारीयः अण् प्र. । b) इषीकेव अजिर्यस्य इति कृत्वा बस. > कस. । c) = विश्वामित्र-
प्रथितामह- । व्यु. ? । d) वैप १ द्र. । e) विशेषः पाभे. च वैप १, ८४४ i द्र. । f) = एकाह-विशेष- ।
g) = यज्ञ-विशेष- । h) व्यप. । उस. उप. अण् प्र. । i) = देश-विशेष- । j) = देवयजन- । तृस. । k) भूयानत्र
पाभे. इति संस्कृता । l) विप. । बस. उप. = निवारण- । m) वस. । n) कस. । o) = इष्टि-विशेष- ।
मलो. कस. पूष. छान्दसः अलुक् । p) *वगरा* इति सा (शौ [२, ३० भू.]) । q) मदुष- = ज्येष्ठीमधु-; रेष्म^{१५}
= वातसंभ्रमवृण- इति केशवः । r) समाहारे द्रस. ।

माश्रौ ६, १, २, २३; वाश्रौ २, १,
१, ४९; वैश्रौ १८, ३ : ५; हिश्रौ
११, १, ६७.

इषु-हस्त, म्ता^० - स्तः आपश्रौ १७,
९, ५; वैश्रौ १९, ६ : ८; हिश्रौ १२,
२, २५; -स्ताम् बौश्र १, १, २४.

इ(षु>)षू-गुह^० - हः कौसू ४९,
७१.

√हषूय > हषूयत् - यते ऋप्रा ९,
१६.

इष्व(षु-अ)ग्र- , नीक- (> म्रीय- ,
नीकीय- पा.) पाग ४, २,
१३८.

इष्वि(षु-इ)ध्म^० - ध्मे कौसू १४,
१०.

इष्वि(षु-इ)ष्टका^० - काः वाश्रौ २,
२, ४, २२.

इषुक- , कार- प्रभृ. इषु- द्र.

?इषुणवन्ति^० या १४, २५^२.

इषुघ^० - [पाग.] > √इषुध्य पा ३, १,
२७; ऋषुध्यति बौश्रौ^१ ६, ४ :
७; १०, १३ : ५; अप ४८, १२;
निघ ३, १९.

इषुफालि^० - > णि-माठर- रौ कौसू
१३८, १६.

इषुभि- प्रभृ. इषु- द्र.

इषुमत^० - ताः बौश्रौप्र १७ : ८.

?इषे^० आपश्रौ ५, २३, ९१.

इषेत्थक- , ण्वा इष्- द्र.

इषोवृधीय-^१ > ष्य-समन्त- न्तयोः

द्राश्रौ ७, ४, २६; लाश्रौ ३, ४,
२४; -न्ते द्राश्रौ ७, ४, १७; २३;
लाश्रौ ३, ४, १६; २१; निस् १०,
३ : २३.

इ(स् >) ष् √कृ("प्रणे)^० > इष्-
कर्तृ^१ - -र्ता^१ काश्रौ २५, ५, ३०;
ऋप्रा ७, ३३; -र्तारम् शुप्रा ५,
४२^१.

इष्-कृति- -तिः शुप्रा ५, ४२^१.

√इष्ट , इष्टति अप ४८, २८^१.

इष्ट, ष्टा^० - पाग ५, २, २८; -ऋष्टः शाश्रौ
१६, ६, १^१; काश्रौ १८, ६, १८;
आपश्रौ ४, १२, १०; १७, २३,
९; बौश्रौ १०, ४९:२१; ५५ :
१७; १८; माश्रौ ४, १८, ७;
माश्रौ १, ४, २, २१××; वाश्रौ;
-ऋष्टम् आश्रौ १, ९, ५; शाश्रौ
१, १४, १९; काश्रौ ७, २, ४५;
२५, ५, १४; आपश्रौ; वैश्रौ
१६, २० : ८^०; हिश्रौ १४, ४,
३८^१; अप ४८, १०८^१; -ष्टम्-
ष्टम् बौश्रौ ३, १८ : ७; १९ : १;
१५; माश्रौ ४, १३, २; १७, ४;
१९, ३; वाधूश्रौ ४, १०३^२ : ११;
१२; -ऋष्टस्य आपश्रौ ४, १२,
१०; बौश्रौ १०, ४९ : २२; १४,
७ : ६; १६; २६; ९ : ११; माश्रौ;
-ऋष्टाः आश्रौ २, ५, १४; काश्रौ
२५, १०, २५; आपश्रौ ५, १८, १^१;
१८, ७, १२५; बौश्रौ ३, १४ :

५; २७, ५ : ५; ७ : ११; २९,
९:९; हिश्रौ ३, ४, ५४^१; जैश्रौका
११४५; वैताश्रौ १३, २४^१;
अप १, ३२, ११५; २२, ९, ४;
५८^१, ४, १७^१; -ष्टान् माश्रौ ४,
१८, ७; -ष्टानि बौश्रौ १६, १२:२;
५; ऋया १०, २६४^०; १४, १९४^०;
-ष्टाम् शंघ १९३; विघ ९२,
२३; -ष्टासु शाश्रौ ३, २०, १५;
बौश्रौ २९, ३ : ९; -ष्टे शाश्रौ
४, ७, ३; काठश्रौ ६३; १३५;
वैश्रौ १०, ११ : ६; वैताश्रौ ३, ६;
१९, १३; २८, १४; काय ५७,
७; माय २, ६, ८; अप १९^२,
५, ७; बौश्र १ : ३०; -ष्टेन बौश्र
१ : ३१; -ऋष्टस्य आपश्रौ ३,
११, २; ९, १२, ७; बौश्रौ १, २१ :
१२; २७, २ : ४; माश्रौ ३, १०,
२; वाश्रौ १, ३, ७, २०; वैश्रौ
२०, २५ : ९; हिश्रौ २, ६, १;
कौश्र १, ५, २९; आमिष्ट १, ५, २ :
१५; ६, २; वैश्र १, १९:५; कौसू
५, १३; -ष्टेषु शाश्रौ ४, ९, ५;
१५, १, २९; -ष्टैः आमिष्ट ३, ३,
२ : २६^१; ११, २:१८; गौपि २,
४, २२; -ष्टौ बौश्रौ ३, १८ :
११; १५; १६; माश्रौ ४, १३, ४;
१९, ५.

इष्ट-कल्याण-श (ङ >) व्दा^१ -
-व्दाः अप ६८, २, २१.

- a) विप. । बस. । b) विप. । उस. उप. कर्तरि कः प्र., पू. दीर्घः उसं. (पा ६, ३, १३७) । षु इत्यपि संस्कर्तुः टि. । c) =इष्टका-विशेष- । मलो. कस. । d) पाठः ? शोषः पृ ४६० j टि. दिशा द्र. । e) वैप १ द्र. । f) शोषः वैप १, ८४६ j द्र. । g) =आचार्य-विशेष- । व्यु. ? । h) =ऋषि-विशेष- । व्यु. ? । i) =साम-विशेष- । तु. कौ २, ४२६-४२८ । < इषो वृधे । j) इष्-कर्तृ-, इष्-कर्तृ- (तु. वैप १) इत्येतयोरिह समावेशः द्र. । k) पामे. वैप १, ८४६ q द्र. । l) पामे. वैप १, ८४७ a द्र. । m) पामे. वैप १, ८४७ e द्र. । n) पामे. पृ ४३८ e द्र. । o) पामे. वैप १ परि. ङदुः मै १, ४, १ टि. द्र. । p) पामे. वैप १, ८४० c द्र. । q) =स्वर्लोक- । r) पामे. वैप १, ८४७ j द्र. । s) पामे. वैप १, ८४७ l द्र. । t) विप. । द्रस. > बस. ।

इष्ट-काल-ले वैगृ ५, १४ : ४.
 इष्ट-तम-भम् विध ९२, ३२.
 इष्ट-तस् (-) शंघ २१८.
 इष्ट-पति- -तिम् अप ६९, ४, ५.
 इष्ट-पूर्णाहुति-सुवाहुति^१- -तीनाम्
 बौश्रौ २७, ११ : १०.
 इष्ट-प्रथम-यज्ञ^२- -ज्ञः वाश्रौ ३,
 २, १, १; -ज्ञाः आश्रौ ४, १, ८;
 शाश्रौ १३, १४, १; आपश्रौ
 २१, २, १; हिश्रौ १६, १, २१;
 वैताश्रौ ३१, २; निसू ५, १३ : ३.
 इष्ट-फल- -लम् अप १९^३, ४, ५.
 इष्ट-बुद्धय(द्धि-अ)र्थ- -र्थः पापवा
 १७; -र्थम् पापवा ८, १.
 ऋष्ट-यजुस्^४- -जुषः आश्रौ ६,
 १२, २; ११; शाश्रौ ८, ८, ६;
 आपश्रौ १३, १७, ४; बौश्रौ ८,
 १६ : ११; १७ : १; १८; २६,
 ३१ : १५; वैश्रौ १६, २१ : २;
 हिश्रौ ९, ४, ५१; दाश्रौ ७, १,
 २८; लाश्रौ ३, १, २७; जैश्रौ
 १५ : १३; २० : ११.
 इष्टा(ष्ट-आ)दि- -दिभ्यः पा५, २, ८८
 इ (ष्ट>) ष्टा-पूर्त^५- -र्तम् कौगृ
 ५, १, १४; आमिगृ ३, ५, २ : ७;
 बौपि १. २ : ११; वैगृ ५, १२ :
 १६; आपघ २, ७, ३६; हिध २,
 २, २४; -र्तस्य वाधुश्रौ ४, ३७ :
 २^६; ४; १२; २३; २४; वाध १,
 ४४; -र्तं आपश्रौ ६, १, ३;
 भाश्रौ ६, ७, ४; माश्रौ २, ५, ५,
 २१^७; तैप्रा ४, ११; अप्रा ३,
 ४, १^८; -र्तेन तैप्रा ३, ६.
 इष्टापूर्त-प्रदान- -नम् शंघ २६५.
 इष्टाहोत्रीय^८- -यम् आपश्रौ १५,
 १४, २^९; बौश्रौ ९, १६ : १३^९;

भाश्रौ ११, १४, १^९; माश्रौ ४,
 ४, २५; वैश्रौ १३, १६ : ७;
 हिश्रौ २४, ६, ४; जैश्रौ ५ : १२;
 दाश्रौ २, २, ९; ६, ४, ४; लाश्रौ
 १, ६, ८; २, १२, ४; -यस्य
 आपश्रौ १५, १४, २; भाश्रौ
 ११, १४, २; वैश्रौ १३, १६ : ८;
 हिश्रौ २४, ६, ४; जैश्रौ ५ : १३.
 इष्टाहोत्रीय-सामन्- -म जैश्रौका
 ७१^१.
 इष्टिन्- पा ५, २, ८८.
 इष्ट(क>)का^१- पाउ ३, १४८; पाग
 ४, २, ८६; पावाग ७, ३, ४५^६;
 -कया बौश्रौ १०, ४८ : २;
 -का आपश्रौ १६, २३, १०^९;
 ऋश्रौ १८, १७ : २८; ३०;
 आमिगृ ३, ७, ४ : ७; काश्रु ७,
 ३०; -काः काश्रौ १६, ४, ६;
 १७, ३, १७; आपश्रौ १६,
 १३, ५; ६; १०; १४, ५; १५,
 ८; २१, २; १७, ४, १२; ११,
 २^९; २१, ६; २६, ११; बौश्रौ
 १०, १२ : १; १९ : २; १६;
 १८; ४७ : ११; १२^९; १४, १९ :
 १०^२; १५, १४ : १२; १७, १७ :
 ३; २४ : २; २९ : ३; ६; १२;
 १४; १६; ३० : ९; १९, ४ :
 २२; २३^९; २२, ८ : ३३; २५,
 ३० : ६; ८; २६, २७ : १-३;
 ५; वाधुश्रौ ३, ७६ : २०; ४,
 १०३^२ : १४; १५; १०४ : १३;
 ११५ : ६; ११९ : १; ५; ७;
 माश्रौ ६, १, ३, ११; ४, ३६;
 ३९; ५, ४; २०; ८, १०; २,
 ४, २; वाश्रौ २, १, २, १२; ४,
 १; २३; २, ३, ३^९; ५, २६;

वैश्रौ १८, १ : ७९; ८२; २ : ७;
 ११ : २०; २२; २४; १२ :
 १६; १३ : ७; १४ : ३७; १६ :
 ७७; १९, २ : ५; ६ : २८^९;
 १४०; २१, १० : ९; हिश्रौ
 ११, ५, १७; १८; २१; ३१;
 ६, ५; ७, २; १२; ३१^९; १२,
 १, १९; ४५; ३, २^९; ८, ११;
 दाश्रौ १४, ४, २; लाश्रौ ५, ८,
 २; बौपि २, ३, १७; हिपि १५ :
 ५; १६ : १; कप्र ३, १०, १५;
 आमिगृ ३, ८, १ : ५; २४; बौपि
 १. १४ : ५; १५ : २; अप १,
 ४८, ६; आपश्रु ११, १४; १२,
 ५; ९; १३, १ : ११; १४, २;
 बौश्रु ६ : ९^९; ७ : ९; १९; ८ :
 ९; १० : १; १४ : २; १६ :
 ५; ८; १९ : १०; २० : १३;
 २१ : ११; हिश्रु ४, १७; २७;
 ३०; ३४; ३९; ४३; -र्तकानाम्
 आपश्रौ १६, २५, २; ३३, ८;
 बौश्रौ १७, २८ : ६; २२, ८ :
 २४; २५; वाधुश्रौ ४. १०३^३ :
 ११; १२; वैश्रौ १८, १६ : ४४;
 ७२; १८ : २; हिश्रौ ११, ५,
 १३; ७, ४२; हिपि १५ : ४;
 आपश्रु ९, ११; १५; बौश्रु ६ :
 ३; ७ : ३; ११ : ६; १२ : ७;
 १७ : ७; १८ : ११; १९ : १३;
 हिश्रु ३, ३०; ३४; -कामिः
 काश्रौ १६, ७, १३; आपश्रौ १६,
 १५, ८; २१, ७; १७, ३, १०;
 २१, १; बौश्रौ १०, १९ : १७;
 वैश्रौ १८, १६ : ३७; १९, ६ :
 १३७; हिश्रौ ११, ६, ६; ७, ७;
 १२, १, ४५; ६, २५; वाध ६,

a) दस. । इष्ट- = इष्टि- । b) विप. । बस. > कस. । c) विप. । बस. । d) वै १ द्र. ।
 e) पाप्मे. वैप १, ८४७ उ द्र. । f) ष्ट्या इति पाठः ? यानि. शोबः । g) तु. पागम ६१ ।

३८; -फंकाम् आश्रौ २,३,१५;
 ४,२५; काश्रौ २१,४,८; आपश्रौ
 ६,९,४^१; १६,५,४; १११,४;
 ५; २१, १२; बौश्रौ १३, ६ :
 २; ७; १०, २३ : १७; २४ :
 ९; १४, १९ : १२; २२, ६ :
 १४; माश्रौ ६,१,२,१३; वाश्रौ
 २,१,१,४०; वैश्रौ १८,१ : ७५;
 १९ : ५; ७; १५ : ३; १६ :
 ८६; हिश्रौ ३,७, ६१^२; ११,
 १, ५९; १४, ५; ६; ७, १३;
 १२, ८, २२; -कायाम् आपश्रौ
 १६,२४,२; १७,३,३; १२, २;
 १९,१२,२४; बौश्रौ १०, ४८ :
 १८; १९, ४ : २४; माश्रौ ६,
 २, ४, ३; ६; वाश्रौ २,२,३,३;
 ९; वैश्रौ १९,४ : १०; ६ : ३२;
 ४८; हिश्रौ ११, ७, ३३; १२,
 १, २८; ३, ४; ८; २३,२,३५;
 -कासु आपश्रौ १६,१३,२; १४,
 १०; २४,३,१६; बौश्रौ २३,१५;
 १६; माश्रौ ६, १,५, १८; वाश्रौ
 २, १, ३, ३१; वैश्रौ १८, ११ :
 १९; १२ : २०; हिश्रौ ११, ५,
 १३; ३५ : ८, १८; बौश्रु ६ :
 १५; पा ४,४, १२५; -के बौश्रौ
 १९, ७ : २२; ४२; ५७; माश्रौ
 ६,१, ८, ७; ९; तैप्रा ४, ४४^३;
 -फंके आपश्रौ १७, ५, १६^४;
 माश्रौ ६,२, ३, ४^५; वाश्रौ २,२,
 २, १०; वैश्रौ १८, २१ : १४;
 १५; हिश्रौ ११,८,१०^६.
 ऐष्टक^७-कम् माश्रौ ६, २, ६,
 २४; २६; -कात् बौश्रु ६ :

१४^१; -कानि शुभ्र २, १७६;
 -के शुभ्र २,११३.
 फंइष्टक-चित्^२-चित् बौश्रु ६ :
 १२.
 इष्टक-चित्- पा ६, ३, ६५.
 इष्टका(का-आ)कार-कराल- लम्
 अप ३६,१,३.
 इष्टका-क्रिया- -या काश्रौ १६, ४,
 २४.
 इष्टका-गण- -णम् बौश्रौ २२, ६ :
 १७; २५,३० : ५; -णान् बौश्रौ
 २२, ८ : २७; २८; बौश्रु ६ :
 १७; -णानाम् बौश्रौ २२, ६ :
 १६; ७ : १७; -णैः हिश्रौ १२,
 ८,१३; आपश्रु १४,५; हिश्रु ४,
 ४६.
 इष्टका-चित्^३- -ते शंघ ११९.
 इष्टका-त्व- -त्वम् वाधूश्रौ ४,
 १०३^२ : ११; १३.
 इष्टका-द्वैवत- -तम् शुभ्र २,१५९.
 इष्टका-परिमाण- -णम् वैश्रौ १८,
 १२ : ३; आपश्रु १०,१३; हिश्रु
 ३,५३.
 इष्टका-पशु^४- -शौ वैताश्रौ १०,
 १३^३.
 इष्टका-पूरण^५- -णम् चव्यू २ : ३१.
 इष्टका-भूय^६- -यम् बौश्रौ २४, ६ :
 १२.
 इष्टका-भूयस्^७- -यान् बौश्रौ २४,
 ६ : ११.
 इष्टका-मन्त्र- -न्त्रयोः बौश्रु ६ :
 १६.
 इष्टका-मृत्तिका- -कायाम् बौश्रौ
 २२,२ : ३.

इष्टका(का-अ)र्थ, र्था- र्था काश्रौ
 १६, १,२०; -र्थात् हिपि १३;
 ४.
 इष्टका-व^१- पावा ५,२,१०९.
 इष्टका-वत् बौश्रौ २२,८ : २८; पा
 ४,२,८६.
 इष्टका-व्यतिरेक- -के बौश्रु ६ :
 १६.
 इष्टका-संयमन- -नाय माश्रौ ६,
 १,४,३१.
 इष्टके(का-इ)षीका-माला- -लानाम्
 पा ६,३,६४; पावा १,१,७२.
 इष्टको(का-उ)क्त- -क्तम् बौश्रौ
 २२,२ : १९.
 इष्टको(का-उ)पधान- -नम् चाश्र
 ३९ : १०; -ने बौश्रौ २९, २ :
 १६; हिपि १३ : ८.
 इष्टकोपधान-मन्त्र- -न्त्रेषु माश्रौ
 ६,१,५,५.
 इष्टकाजिनात्यून्यो अप ३६,९,३.
 इष्ट-तम- इष्ट- द्र.
 इष्टर्ग^२- -र्गः बौश्रौ १४, ४ : ९; १०;
 २६,७ : ९; १०; भाशि १००.
 इष्टा जैश्रौका ७१.
 इष्टादि- प्रमृ. इष्ट- द्र.
 इष्टि^३- पा ३, ३, ९६; पावा ३, ३,
 ९५; -ष्टयः आश्रौ २, १, १८;
 १४, ५; १८, २; ३, १३, १;
 ५, १८, २^४; १०, ६, ७; शाश्रौ
 १, १७, ८; ८, ३, ४^५; १४,
 १०, १२; आपश्रौ २४, ३, ३१;
 काश्रौसं ३ : २; ५ : १; ६ : ८;
 २०; बौश्रौ १३, १ : १७; १९;
 ४३ : २७^६; २०, ३ : २१; २४;

a) विप., नाप. । सास्यदेवतीयाद्यर्थे अण् प्र. । b) वैप १ द्र. । c) नाप. । षस. । d) मलो.
 कस. । e) षकाः पशौ इति पाठः? यनि. शोषः (द्र. C.) । f) = परिशिष्ट-विशेष- । इष्टका-पूरणम् (षस.)
 अधिकृत्य कृत इत्यर्थे प्र. लुप् उंसं. (पावा ४,३,८७) । g) विप. । षस. उप. षयबन्तम् । h) विप. (अग्नि-कल्प-) ।
 i) द्र. पागम ४२६ । j) वैप १,८४८ k, ८४९ a द्र. । h) पाजे. वैप १, ८४७ m द्र. ।

२३, ४ : २३; २४, ५ : ४; ११ :
 ११; २९ : १; १०; २६, ५ :
 १; २७, ६ : २४; भाश्रौ ५, १५,
 ६; ८, २२, १२; वैश्रौ ९, १ : ४;
 २०, ९ : ३; १५ : १०; जंश्रौका
 ३४; लाश्रौ ९, ९, १०; १०, २०,
 ४; वैताश्रौ ४, २७; ३६, २१;
 ३७, १२; २०; निसू ११, ११ :
 २१; बौगृ ३, १, २४; अप्राय
 ३, ९; आमिगृ १, २, १ : १४;
 बौध ४, ६, २; याशि २, ८; ८;
 -ऋये आश्रौ ५, १८, ५; शाश्रौ
 ८, ३, १०; -ष्टिः आश्रौ २, ८,
 ४; ९, ६; ३, १, २; १०, १०;
 १२, ५; ८; १२; २६; २७;
 १३, १२; ४, ३, १; १२, ६, २९;
 शाश्रौ २, २, ३; ४, १; ३, १, १;
 १५, ३; १६, १; १९, १०; १५;
 ५, ३, १; ४, ७; ७, १; ८, ११,
 १; १३, २; ५; ९, २२, १; १४,
 ३२, २; काश्रौ २४, ६, ७;
 आपश्रौ ५, २०, १९; २१, ११;
 २२, ५; ७; ९; २४, ६; २७,
 २; २९, ९; १०; ६, ३०, ११;
 २१; ३१, ६; ७, १, ५; ८, १,
 ४; ३, १८; ९, ४; ७; ११, २२;
 १२, ७; १९, ४; ७; २१, १; ९,
 १, २१; १४, १३; १३, २५, ७;
 १०; १४, १३, २; १९, १८,
 ४; २०, १३; २०; २४, १२;
 बौश्रौ २, १९ : ७; १६; २० :
 १३; १९; २१ : १४; ३, १ :
 १०; ३ : ७; १२; १४ : ८;
 १५ : २१; ५, १ : ८; १० : ५;
 ७; २८; १७ : ११; ८, २२ : ५;
 ९; १२; १४, २१ : २६; २५ :
 १०; १५, ३ : ११; ६ : २४;
 ९ : ५; १२; १४; १५; १० :

५; १६; ११ : १६; १२ : ५;
 १७ : १२; ३७ : १७; १६, २ :
 १; ३० : ३; १७, २२ : ८; ४९ :
 ४; ५० : १४; २०; ५१ : ४;
 ७; १२; १५; ५२ : ४; ९;
 ५३ : ५; १०; १८, ५० : २४;
 २०, १ : ४८; २३९ : ११; २५,
 ६ : ५; २६, २७ : ४; ७; २७,
 ७ : १३; २८, १ : २९; २ : ५०;
 ३ : २२; ८ : १६; २९, ९ : ११;
 भाश्रौ ५, १३, ३; १७; १९; १५,
 ७; १६, ४; २१, ६; ६, १७, २०;
 १८, ४; ९; ७, २, १४; ८, १, ४;
 ३, २३; १०, ५; ११, ४; ६;
 १३, १२; १४; १४, १०; २०,
 १५; ९, २, ५; ५, ५; ८; ११; १४;
 १७; २०; ६, ८; ९, ९; १०, २;
 ६; १५; ११, ११; १५; १२,
 १०; १३, ३; ७; ११; १४, १३;
 १६, १०; माश्रौ १, ५, ५, १९;
 ७, १, ४; २, २१; ४, ५०; ५, ३;
 ८; ७, १४; ८, ७; ५, १, ९, २९;
 २, ६, २३; ७, २०; वाधूश्रौ ३,
 ४१ : १८; ४, २ : ११; १३ :
 २; ५; १७ : २; ४; २२ : १४;
 १०७ : १; वाश्रौ १, ३, ७, २०; १;
 ३, ४, १, ४१; वैश्रौ १, १९ : ९;
 ८, ३ : ९; ८ : १; १३ : १४;
 १४, १४ : २; १६, २७ : ६;
 २०, २ : १५; ३ : १७; २३ :
 १; हिश्रौ ६, ३, २; १५, ४, २१;
 २२, २, ४; लाश्रौ ५, ६, १०; १०,
 १७, १४; १८, २; ३; वैताश्रौ
 १२, १; ३६, १७; निसू ६, १ :
 ९; १०; १०, १० : ३; आमिगृ
 ३, ५, १ : १४; बौपि १, १ : १३;
 मागृ २, ३१ : १५; वागृ १५,
 ११; अप २२, ९, ४; ४८, ९५; १;

चाश्र ११ : १; निघ ३, १७; १;
 मीसू ३, ४, २८; ५, ४, ९; १०,
 १, ४; ३, ५६; ११, २, १९;
 -ष्टिमिः शाश्रौ १५, १२, ७;
 ११; आपश्रौ १९, १८, १; २०,
 २३, ८; बौश्रौ २३, १२ : २४;
 माश्रौ ५, १, १, १; वाधूश्रौ ३,
 ७८ : १; ४, २२ : १२; वाश्रौ
 ३, ३, १, २५; ४, ५०; ४, ५, ३२;
 हिश्रौ १४, ५, १५; १८, ४, ५९;
 २२, २, १; द्राश्रौ ११, ४, २०;
 लाश्रौ ४, ४, १९; ९, १२, ६; निसू
 १०, १० : १२; शोध १३८;
 -ष्टिम्याम् आश्रौ ९, ८, १; १०,
 ६, २; बौश्रौ १२, २ : ८; १८,
 ३७ : ६; १८; -ष्टिम आश्रौ ३,
 १०, १९; आश्रौ ४, १, २१; १२,
 ४, १०; शाश्रौ ३, ६, १; १५,
 १४; १३, २९, २०; आश्रौ ३,
 १६, ५; ५, २३, ४; ६, ३१, ८;
 ८, १, ३; ७, ११; ९, १, १०;
 ४, ४; १५, १५; १८, २१, १६;
 १९, १९, १०; २३, १०; २५, १४;
 २३, १३, ५; बौश्रौ ५, १ : ७; ६,
 ३ : १६; १० : १४; ८, २२ : २;
 १०, १२ : ११; १२ १७ : १४;
 १६; १३, २६ : १; ३० : ३;
 ३१ : ४; १५, १३ : २; १७,
 २३ : ५; ४७ : ६; ९; १८, ६ :
 ७; २० : १४; १६; ५० : ४;
 ५; ७; २१; २३, १ : २३; २६,
 २६ : १; ४; २७, ११ : ८; १२ :
 २५; २६; १३ : १०; ११; २८,
 १ : १४; २९, १ : ११; १३ :
 ५; भाश्रौ ५, १५, ९; ६, १५,
 १६; ९, १, १०; ६, ९; १८,
 ३; १०, ३, ५; ५, ८; माश्रौ १,
 ५, ६, १९; २, ५, ५, २४; ५, २,

६, ९; ११; वाधूश्री ३, ४१ :
 ७; ८; १०; ११; १३; १४; १६;
 ७७ : २; ४, ३२ : ३; वाश्री १,
 ४, ४, २३; ५, १, २; १९;
 ७, ४, ५९; ३, २, ८, ३; ३, १, २;
 वैश्री १, १७ : ८; ८, ३ : ५;
 १२, ५ : २; २०, २ : ६; १०;
 ३ : १; ९; १४; ७ : ८; ९ : १;
 ३३ : ७; हिश्री ३, ५, २१; ४,
 १, ४; ५, १, २; ७, १, १६; ९, ६,
 ३०; ११, ३, १; १४, २, ३५;
 १५, १, १०; ८०; ८२; ४, ३५;
 १६, ८, २०; १८, ४, ३९; २२,
 ५, १; जैश्रीका २१२; द्राश्री १४,
 २, १; लाश्री ५, ६, ४; १०, १७,
 १; १९, ७; आम्रिष्ट ३, ९, ३ : ११;
 वौपि २, ७, ११; ८, ११; ३, ७,
 ५; हिपि २३ : ३४; कौसू ८०,
 ३९; अप्राय ३, ४; ४-५, १; ६,
 ७; शंघ १४८; विध ९६, १;
 -ष्टिषु काश्री १, ३, ४२; आपश्री
 २०, ७, ५; काश्रीसं ३ : ५; ६ :
 ९; वौश्री १४, २० : २६; २३,
 १४ : २२; वाधूश्री ३, ८३ : ३;
 हिश्री १४, २, १८; जैश्री २६ :
 ४; द्राश्री १२, ४, ७; लाश्री ४,
 १२, ६१; वैताश्री ६, ११; मैअ
 १२; तैप्रा ४, ५२; मीसू ८, १,
 ११; -ष्टीः आपश्री २३, १४, ५;
 वौश्री १३, १ : १; १५; २०,
 १८ : २१; २८; २२, १३ : १६;
 २६, ३० : १६; द्राश्री १२, ४,
 १८; लाश्री ४, १२, १३;
 -ष्टीनाम् शाश्री १, १२, १०;
 १३, १, ३; आपश्री २४, ३, ३२;
 वौश्री ३, ३० : २३; २६ : १४;
 २४, ५ : ३; माश्री १, ५, १, १;

हिश्री १४, २, १८; २२, ३, १;
 वाधूश्री ४, २२ : १२; अप्राय ३,
 ९; -ष्टेः आश्री ३, १०, १३;
 हिश्री १३, ७, १; मीसू ६, ५, ४२;
 ८, १, ३; ५, १८; १२, १, २४;
 -ष्टौ शाश्री ३, १०, २; काठश्री
 २; काश्रीसं ४ : १३; वैश्री २०,
 १५ : ४; हिश्री १०, ४, ७७;
 जैश्रीका ४०; २११; द्राश्री १,
 ४, १; १२, ३, १८; ४, १५; १९;
 लाश्री ४, ११, १८; १२, १०;
 १४; ९, ९, ९; -ष्टया शाश्री ३,
 १८, १९; काश्री ५, ११, १६;
 २४, ६, ३९; आपश्री १०, २, ८;
 १७, २४, १३; २०, १, ४; २२,
 २, १६; काठश्री ३२; काश्रीसं
 ५ : ४; वौश्री १२, ३ : ३; ४;
 १८ : २६; २० : १५; १३, ३ :
 ३; ६ : ७; ८ : २; १८ : ६; २० :
 २; २३ : २; २४ : २; १०; २५ :
 ७; २९ : २; ३१ : ४; ३३ : ७;
 ३५ : १; ६; १२; ४१ : ३; ४२ :
 १०; १५, ९ : १८; १९; १० : ८;
 ११ : १०; ११; १८; १९; १३; ९;
 ३७ : ५; १४; १७, ४८ : ५;
 ५१; २; ५५ : १५; ५६ : २३; ५७ :
 २६; ५८ : १२; ६२ : १३; १८,
 २० : ९; २२, १६ : १९; २१;
 २४, १८ : ७; २५, १ : ४; १०;
 २६, १ : ६; ७; १० : १९;
 २८, १ : ३; २ : ३; ४ : ३०;
 २९, ७ : ६; भाश्री ६, १५, १३;
 १५; ९, १८, १; हिश्री १२, ७,
 २३; १४, १, ४; १७, १, ३३;
 लाश्री १०, १९, ९; १०; आश्री ४,
 १, ४; अप्राय २, १; विध ५९,
 १०; -ष्टयाः हिश्री ३, ८, ७१;

-ष्टयाम् आपश्री ९, ७, ८; ११,
 २१; वौश्री १३, ४२ : १; २३,
 १ : २४; २ : ३१; माश्री ५, १;
 ६, ६; वाधूश्री ३, ४१ : ९; १०;
 १२; १३; १५; १७; वैश्री २०,
 २२ : ७; वैताश्री ९, २; -ष्टयै
 वाश्री १, ३, ७, २०; -ष्टयोः
 वाधूश्री ३, १६ : २.

ऐष्टिक^० -कानाम् मीसू ८, १,
 १०; -के आश्री ४, १, ९; -केषु
 आश्री ५, ३, ७; -कैः वौश्री २२,
 १८ : १९; २३, ३ : २४; २५.

ऐष्टिकी-क्या माश्री
 ५, २, ४, १; ६, २, ६, २७; -क्याः
 माश्री ५, २, ११, १.

ऐष्टिक-पाशुक-सौमिक-

दार्वाहीम-मानाम् वौध २,
 ६, १२; ३१.

ऐष्टिक-पागम^० ३८४.

इष्टि-करण-णे वौश्री २०, २५; ४.

इष्टि-कल्प-ल्पः वौश्री २४, ११ :
 ६; -ल्पम् वौश्री २३, १ : १;
 २६, ४ : १; -ल्पे आम्रिष्ट ३,
 ७, ३ : १६; वौपि २, १, ७;

इष्टि-काल-लाः शाश्री २, २, १.

इष्टि-त्व-त्वम् वाधूश्री ४, २२ :
 १२; -त्वेन मीसू ६, ८, २; ७.

इष्टि-देवता-ताभ्यः माश्री १, ५,
 ६, ११.

इष्टि-पथ-थे वौश्री २३, १ : ५.

इष्टि-परिवेषण-णम् आपश्री
 १८, १०, १३; हिश्री १३, ४, ३.

इष्टि-पशु-शवः काश्री १९, ६,
 १; -शुषु काश्री ४, ३, २; -श्वोः
 काश्री २, २, २२.

इष्टि-पशु-चातुर्मास्य-स्यैः आश्री
 ४, १, १.

a) शोचः पृ ४७ f द्र. ।

b) विप., नाप. । तस्येदमीयः स्तार्थिकश्च ठक् प्र. ।

c) तु. पा ४, ४, ५९ ।

इष्टि-पशुबन्ध- न्धाः बौध्रौ २०,
२५:२; २५, १: ९; भाश्रौ १०,
१४,३; हिश्रौ ३,८,४०; -न्धा-
नाम् शाश्रौ १, १६, १; आपश्रौ
३, २०, ११; २४,३,३०; भाश्रौ
६, १६, ३; वाश्रौ १,४,४,३८;
हिश्रौ २,८,४३; ३,८,३९; ६,
४,४०; -न्धाभ्याम् वाधुश्रौ ४,
२५: ७; -न्धेषु वाश्रौ १, १,
१, ६५; -न्धेषु शाश्रौ १, १६,
२०; ३, २१, १; ४, २, १; भाश्रौ
३, १८, १२; वैश्रौ १२, १५: ५;
हिश्रौ ७, १, १९; ७६; निस् ५,
१३: ९; -न्धौ वाधुश्रौ ४, १३:
१; १७: १.
इष्टि-पशु-सोम- -माः आश्रौ २,
१, १; -मानाम् माश्रौ ५, २,
१५, २४; -मेषु बौश्रौ २, २:
२२; २९, १२: १२; बौध्र १,
६, ९.
इष्टि-पूर्वत्व- -त्वम् मीस् ५, ४, ५;
-त्वात् मीस् ६, ६, ३०; ८, १.
इष्टि-पृथक्त्व- -त्वम् हिश्रौ १३,
३, १०.
इष्टि-प्रथम-यज्ञ^b- -ज्ञानाम् वाश्रौ
३, २, १, १.
इष्टि-प्रमृति-गाथा- -थाः वाश्रौ
३, ४, १, ४०.
इष्टि-प्राय^c- -यः निस् ६, १: १९.
इष्टि-मध्य- -ध्ये वैश्रौ २०, २२: ६.
इष्टि-यज्ञ-ऋतु- -तूत् आपध १,
२७, २; हिध १, ७, २७.
इष्टि-राजसूय-चातुर्मास्य- -स्येषु
मीस् ११, २, ११.

इष्टि-वत् मीस् ११, ४, २.
इष्टि-वर्ग- -र्गम् वाश्रौ १, ५, १, ६;
इष्टि-वि(धा>)ध^c- -धः आपश्रौ
७, २८, १^११.
इष्टि-शब्द- -ब्दः मीस् ११, २, २२.
इष्टि-श्राद्ध^d- -द्धे शोध २१०.
इष्टि-संनिपात- -त्ते बौश्रौ २०, ३:
२०; २५, १: १७; माश्रौ ३, ४, ४.
इष्टि-संस्था- -स्थासु लाश्रौ १०,
१५, ८.
इष्टि-सोम-पशु- -शवः काश्रौ १५,
१, २.
इष्टय(ष्टि-अ)ग्न्याधेय^e- -यम् वाश्रौ
१, १, १, ५.
इष्टय(ष्टि-अ)न्त^f- -न्तम् निस् १०,
११: २२; -न्ते वैश्रौ २०,
१६: ८; मीस् ५, ३, ३०.
इष्टय(ष्टि-अ)पवर्ग- -र्गे माश्रौ १,
५, ६, ८.
इष्टय(ष्टि-अ)पनयन-मध्य- -ध्ये
हिपि २०: १४.
इष्टय(ष्टि-अ)यन्त^g- -न्तम् काश्रौसं
५: २; लाश्रौ १०, २०, ८;
निस् १०, ११: १०; -नानि
आश्रौ २, १४, १; -नेन निस्
११, ११: १६; -नेषु दाश्रौ १,
४, ३०; लाश्रौ १, ४, २६; १०,
११, १५; १६, १२.
इष्टय(ष्टि-अ)र्थ^h- -र्थम् मीस् ३, ६,
११.
इष्टय(ष्टि-अ)विभव- -वे हिपि
२०: १२.
इष्टय(ष्टि-अ)हन्- -हनि बौश्रौ २०,
१८: ३३; ३५; ३६ⁱ.

इष्टया(ष्टि-आ)दि- -दिषु दाश्रौ १२,
२, २३; लाश्रौ ४, १०, २४.
इष्टया(ष्टि-आ)वृत्ति- -त्तौ मीस्
९, १, ३४.
इष्टयु(ष्टि-उ)पचार-कल्प- -ल्पः
बौश्रौ २८, ५: ६.
इष्टयुतः^k वैष्ट २, ६: ६^१.
इष्ट्वा, इष्ट्वीनम् ✓यजु द्र.
इष्ट-गायत्र-रथंतर-वृहद्-वाम-
देव्य-यज्ञायज्ञीय^l- -यैः जैश्रौप-
१६.
इष्णात्-, इष्म-, इष्यत्- ✓इष्
(वधा.) द्र.
इष्व- पाउना १, १४२.
इष्वा(षु-आ)स- इकस- टि. द्र.
इह प्रमृ. इदम्- द्र.
इहामेहाम् वैश्रौ २, १: ७^१.
इहाहा^m- -हायाः लाश्रौ ७, ४, ४.

ई

ईⁿ शुप्रा ८, ३; ऋत २, २, ९; ३, २, ५;
याशि २, ९४; ई३ शुप्रा ८, ३;
याशि २, ९४.
ई-कार- -रः वेताश्रौ ३२, ३२; निस्
१, १२: १८; आप्रा ३, २, २०;
-रम् हिश्रौ २१, २, ३४; ऋप्रा
१४, ४३; ४४; उस् ७, ३; ८, ५;
-रे आप्रा ३, २, ४; -रेण शुप्रा
७, ३; माशि १३, ७.
ईकार- पावा ७, १, ३९.
ईकार-प्रतिषेध- -धः पावा ३,
२, १३९.
ईकारा(र-अ)न्त- -न्तम् वैष्ट
६५: १; शोध २१.

a) समाहारे द्वस. । b) पाठः? इष्ट^o इति शोधः (तु. आपश्रौ २१, २, १ प्रमृ. c) विप. । बस. ।
d) मलो. कस. । e) अग्न्याधेय-भेवेष्टिरिति कृत्वा कस. । f) बस. उप. भाप. । g) पाठः? इष्टः, ते इति द्वि-पदः
शोधः (तु. सपा. दिष्ट १, ५, १३; संस्कर्तुः टि. च) । h) साम्ना द्वस. । आद्यः शब्दः पृष्ठ- इति संभाव्येत । i)
=स्तोम-विशेष- । j) वर्ण-विशेष- ।

ईजान- ✓यज् द्र.

✓ईर्, ङ्, ल्^b पाधा. अदा. आत्म.; चुरा. पर. स्तुतौ., ऋईडे आपमं १, १०, २१^c; बौश्र १, ६, २३^d; या १४, २७^e; ऋईडते आश्रौ ३, १३, १२; ९, ९, ७; शांश्रौ २, २, ६; १२, १९, २; आपश्रौ १९, १८, ७; बौश्रौ २, १४: १९; १३, ४३: २५; माश्रौ ५, १, २, १७; वैश्रौ २०, ८: २; भागृ २, ५: १२; या ८, २^f; १०, १९^g; ऋईडे आश्रौ २, १, २६×; शांश्रौ; वृदे ३, १३^h; या ७, १५ⁱ; ऋईडामहे आपमं १, १०, १; बौश्र १, ६, २३; ऋईडिष्व>प्वा आश्रौ ४, १३, ७; शांश्रौ; ईडेयाम् माश्रौ २, ३, ३, ९^j; ऋईडामहे आश्रौ १, ४, ११; शांश्रौ १, ६, १६. ईड्यते वृदे ८, १३३; शुश्र ४, १५६.

ईड-ड: या ८, ७^k.

ऋईडमान-न. आपश्रौ २, २०, ६; बौश्रौ २४, २९: १८; माश्रौ २, १९, १; हिश्रौ २, ५, ४७.

ईडान-नान् आश्रौ २, १४, ३१; शांश्रौ १, १७, १९.

ऋईडित, ता-त: आश्रौ २, १९, २९×; शांश्रौ; -ता: बौश्रौ ८,

१४: ४१; -ते माश्रौ २, ३, ३, ९^l; -तेभि: या १४, ३०; -तौ अप १, ३९, ४; अशां ९, ४. ईडितव्य-व्य: या ७, १६; ८, ८; -ऋश्रै: आपश्रौ १४, १७, १^m; हिश्रौ १५, ५, १ⁿ.

ईडेयावीय^o-यम् आश्रौ ४, १५, ९; शांश्रौ ५, ९, २४; ६, ६, १२.

ऋईडेन्य^p-न्य: आश्रौ १, २, ७; शांश्रौ १, ४, ८; वैताश्रौ ३९, ८; साश्र २, ८८८; अश्र २०, १०२; -न्यान् आश्रौ १, ४, ११; शांश्रौ १, ६, १६; तैप्रा ९, २२.

ऋईडेन्य-कृतु^q-तू: आपश्रौ ४, ५, ५; माश्रौ ४, ७, ३; वैश्रौ ५, २: ७; १६, ३: १७; हिश्रौ ६, २, ७.

ईड्य-ऋड्य: शांश्रौ ८, २४, १; आपश्रौ; कृया ७, १६; ८, ८; -ड्या: कौस् ६, २६^r; -ड्यान् कौस् ६, २७.

ईति- ✓ई द्र.

ईत्या^s-त्या बौश्रौ २, ५: १४.

ईन्व-ई-द्र.

ईदक्ष-, श्-, श्- इदम्-द्र.

ईध्यस्व^t शैशि ८९.

ईध^u-धात् द्राश्रौ १५, ३, ११; लाश्रौ ५, ११, ११^v.

ई-निघन-ई-द्र.

ईप^w-> ष्-लोम-कूल^x-लम् पा ४, ४, २८.

ईप्सत्-प्रभृ. ✓आप् द्र.

ईम्. ईम्-पूर्व-ई-द्र.

ईयस्-> ✓ईयस्य पां.) पाग ३, १, २७^y.

ईयुष्ठी- ✓ई द्र.

✓ईर्^z पाधा. अदा. आत्म. गति-कम्पनयो:; चुरा. उभ. क्षेपे, ईर्ते निघ २, १४; ऋप्रा १४, ४९; ईरते अप १, २६, ६.

ईरयति सु १५, २; या ९, ४; १४, १४; ईरय>या माश्रौ १, ५, २, १३; ऐरयत् आश्रौ २, १९, ३२; शांश्रौ ३, १७, १; काश्रौ २५, ६, ७; ऐरयत् बौश्रौ १३, ३२: ९; अत्राय ३, १०^{aa}; ऐरयन्त काश्रौ १०, ३, २२; बौश्रौ ८, ११: १; १४, ५: १५; माश्रौ २, ५, ४, १७; आगृ २, १०, ६; ऐरयन् काश्रौ ६, १, ३३^{ab}; बौश्रौ १, ११: ३५;

तैप्रा ५, २१; ऐरय: शांश्रौ १८, ११, १; बौश्रौ १३, ११: ६; ११; ईरयेत् ऋश्रौका ६५; १०८.

ईरण-> ण-वत्-वान् या १०, ३१.

ईरण^{ac}-ण: या २, १४; ३, १९.

ईरयत्-यन् सु १४, २; कप्र ३, २

a) अध्येषणायां पूजायां स्तुतौ च वृत्तिरिति या ७, १५ वृदे ३, ४। पा ७, २, ७८ परामृष्ट: द्र.।

b) शांश्रौ. भागृ. अश्र.। c) पामे. वैप १, ८५३a द्र.। d) उत्तरेण संधिरार्ष:। e) पामे. वैप १, ८५३ d द्र.। f) णा: इति पाठ: ? यनि. शोध: (तु. C.)। g) पामे. वैप १, ८५३। द्र.। h) (=ईडे घावां [ऋ १, ११२, १] >) सूक्त-विशेष-। i) वैप १ द्र.। j) विप. (२अप्-).। बस.। k) पामे.

वैप १ वरेण्यकृतु: टि. द्र.। l) भाप.। पाठ: ? (✓ई>) इत्या- इति मतम्। m) पाठ: ? ईड्यस्य इति शोध: संभाव्यते (तु. ऋ १०, ३, ४ संस्कृतु: टि. च)। n) अर्थ: व्यु. च ?। = निमित्तवचन- [सोमातिरेक-] इति भाष्यम्। o) इ इति पाठ: ? यनि. शोध: (तु. द्राश्रौ.)। p) कृतसमासान्तम् (<२अप्- [पा ६, ३, ९७]) इति। q) समाहारे द्वस.। r) तु: पागम.। s) या ४, २३ परामृष्ट: द्र.। t) पामे. वैप २, ३खं. माश्र ११, ७, २, ६ टि. द्र.। u) कर्तरी व्यु: प्र.।

१३; अप १, ४१, १; अशां ११,
१; वृदे ४, १२२.

ईरयित्- -ता या ९, ४; १२, ३.

ईरित्, ता- -तः ऋअ ३, २४; याशि
१, ५६; -तम् कप्र २, ८, ७;
ऋअ ३, १४; -ताः वृदे २, ८४;
५, ३९; -तौ भाशि ३२.

ईर्म^६- -र्मा या ५, २५१.

ईर्मा(र्म-अ)न्त^६- -न्ताः या ४,
१३; -न्तासः अप ४८, ११५;
वृदे ४, २७; निघ ४, १; या ४,
१३४.

ईर्य- > ०र्य-त्व- -त्वाय वृदे ७,
१२८.

ईरिण^७- -णात् गोगृ २, १, ४; -णे
कौस् ४७, ६; वाध १३, १७.

ईर्य^८, पाधा. भ्वा. पर. ईर्या-
याम्.

ईर्म^९- पाउभो २, २, २४०; -र्मः
या ५, २५४; -र्मम् बौथ्री २१,
९ : २५; -र्मस्य बौथ्री ६, १२ :
१८.

ईर्य^{१०} √इर् (वधा.) द्र.

ईर्य^{११} (= √ईर्य^{१०}) > ईर्पालु^{१२}- -लुः
शंघ ३७७ : १२.

ईर्य^{१३}, पाधा. भ्वा. पर. ईर्यायाम्,
ईर्यामि आपध २, १३, ६; बौध
२, २, ३४; हिध २, ३, ६.

ईर्या- -र्या बौथ्री २, ५ : ९१;
वाध २१, २३; -र्यायाः कौस्
३६, २५; अअ ६, १८.

ईर्या-कार्पण्य-वर्जिन्- -र्जी वैध

३, ५, ७.

ईर्या (र्या-अ) पनयन- -नम्
अअ ७, ४५१; अं २ : ९१.

ईर्या-विनाशन-वेवता-> ०व-
त्य- -त्यम् अअ ६, १८.

ईर्यु- पाउना १, ३७.

ईर्यत्- √ऋध् द्र.

ईर्यत् (= √इर्), ईलयन्ति आपथ्री
१, १६, ११.

ईर्यत्^{१४}- -वत् शांथ्री १६, ११, २४;
ऋप्रा २, ६१.

ईर्य^{१५}, पाधा. अदा. आत्म. ऐश्वर्ये,

ईष्टे लुस् ३, १४ : ८; गौध ११,
१; वृदे २, ३५; ईर्यो^{१६} आथ्री

४, १, २३; ६, १४, १६; शांथ्री
९, २८, ३; १५, २२, १६; १६,

१३, १०; आपथ्री ६, १७, १०;
बौथ्री ४, ३:२६-२८××; भाथ्री;

या ७, २; पावा ४, ४, १४०;
५, ४, ३०; ईशाते आपध २,

२९, ३; हिध २, ६, १६; ईशाते
बौथ्री १८, २९ : ४; लुस् ३,

१४ : १५; ईर्यिषे आथ्री १,
७, ८; शांथ्री १८, १५, ५; आपथ्री

४, १५, १; ६, २५, १०; भाथ्री
४, २१, १; हिथ्री ६, ४, १८; ६,

१६; भागृ १, २५ : २०; या ६,
६; शुप्रा २, ४३; ईशाथे आपथ्री

२२, ७, १११; ईर्यो^{१७} शांथ्री
४, १८, ५; या १३, १; ईशत

शांथ्री १२, १५, १; आपथ्री १४,
३०, ४; बौथ्री १, १ : १३; हिथ्री

१५, ७, १९; द्राथ्री ७, ३, ५; अप
४६, ३, ३; ईशीत शांथ्री १४,
२२, २१.

ईर्य^{१८}- ईशा शुअ ४, १२२१.

ईश- -शः बौध २, ७, १०१; -शस्य
चाअ ४० : ८.

ऐ (श >) शी^{१९}- -श्याम् अप
५९, १, ८.

ईशा^{२०}- -शा वाधुथ्री ३, ७१ : ५;
-ईशाम् अअ ११, २०; १५,

१; अपं ३ : ५०; -शायाम्
काथ्री १५, ३, २११.

ईशान, ना^{२१}- -नः आपथ्री ६, २०,
२××; बौथ्री; कौस् ७२, १४१;

या ६, २०; -नम् आथ्री ६, ४,
१०; शांथ्री; या ६, २४; -नस्य

आपमं २, १८, २४; आमिगृ;
-ना आथ्री ४, १२, २; -नाम्

भागृ २, १३, ६; कौस्; -नाय
आथ्री २, २०, ४××; शांथ्री.

ईशानी^{२२}- -न्याम् आमिगृ

२, ५, १ : १८; अप २३, १०,
४; -न्यै शांथ्री ४, १९,

५१.

ऐशा (न >) नी^{२३}- -न्याम्
आमिगृ २, ४, ११ : ११; वैगृ १,

१० : १३; ५, ५ : २७; अप
२५, १, ८; ५२, ९, २; ६५, २, ९;

विध ८६, १७; -न्यै भागृ ३,
१३ : २११.

ईशान-कोण- -णे अप २१, ५, १.
ईशान-वत् आपगृ २०, १३.

a) वैप १ द्र. 1

b) हरिण- इत्यनेन स-न्यायता द्र. 1

c) = व्रण- 1 < √इर् इति 1

d) = व्रण- [तु. पाका ५, ४, १२६] 1

e) आलुच् प्र. उसं. (पा ३, २, १५८) 1

f) पा १, ४, ३७ पावा

६, १, ३ परामृष्टः द्र. 1

g) अर्याप^{२४} इति पाठः ? यनि. शोघः 1

h) पा ७, २, ७७; ७८ परामृष्टः द्र. 1

i) वैप १, ८५५ II द्र. 1

j) उपु१ रूपम् 1

k) = दिग्-विशेष- 1 साऽस्यदेवतीयः अण् प्र. 1

l) भाप. 1 m) वैप १ निर्दिष्टानां त्रयाणामिह समावेशः द्र. 1

n) पाभे. वैप १ पुोषेण मा १२, ८ टि. द्र. 1

o) = दिग्-विशेष- 1 स्त्री. ङीष् प्र. (पा ४, १, ४८) 1

ईशान-स्थाली-पाक- -कम्
 आमिष्ट २, ५, ८ : ३७.
 ईशान-ह (त >) ता^h -तायाः
 कौस् ३६, १५.
 ईशाना(न-अ)न्त^b -न्तम् वैश्री
 ६, ३ : ८; १५, १४ : ११; वैश्र
 १, ११ : ६; १५ : २.
 ईश्वर, रा^c - पाठ ५, ५७^d; पा ३,
 २, १७५; पाग ५, १, १२४; -रः
 शांश्री १६, १०, ५; वीश्री १३,
 १७ : ६; १४, ३ : ७; ४ : ४२;
 १५, २७ : ९; आमिष्ट २,
 ४, १२ : ५; गोष्ट १, ६, ३;
 अप ३१, १, ३; ३५, २, ९; ४३,
 ५, १६[†]; ६७, ३, ५; ४, ५; ५, ३;
 ६, ७; ७, ४; या ३, १२; ५, ७;
 ९; आज्यो १३, ६; पा ५, १, ४२;
 -रम् आमिष्ट २, ७, ११ : १९;
 गोष्ट ३, ६, १०; जैष्ट २, ९ : १४;
 अप ४०, २, २; विध ६३, १;
 गौध ९, ६३; -रस्य अप ४८,
 ११४; निघ २, २२; -राः वीश्री
 १४, ४ : ३६; १९ : ५; वाधूश्री
 ३, ५ : ४; ४, १०७ : ५; अप्राय
 १, ५; -राय काष्ट ५२, ६; वैष्ट
 २, १२ : १४; ५, २ : २९[†]; -रे
 अप ४८, २, १; पा १, ४, ९७; ३,
 ४, १३.
 ईश्वरी^e -रीम् आमिष्ट
 २, ६, १ : ३०; माष्ट २, १३, ६.
 ऐश्वरि^f -रयः ऋअ २, ९,

१०९; साअ १, ४३६; ५१०.
 ऐश्वर(र >)री^g -श्वर्यः साअ
 १, २३३.
 ऐश्वर्य^h -पा ५, १, १२४; -र्यम्
 वीश्री १८, १९ : १०-१२××;
 वैष्ट; अअ १, १९; या १, ३; ३,
 ११; ८, २; १४, ३६; -र्ये पा ५,
 २, १२६; ६, २, १८; -र्येण या ३,
 ११.
 ऐश्वर्य-कर्मन्ⁱ -र्मणः या
 १०, ८; -र्मणाम् या १४, १२;
 -र्मणः निघ २, २१; या ३, ११.
 ईश्वर-तम- -मम् या ११, २१.
 ईश्वर-नामन्- -मानि निघ २,
 २२; या ३, ११.
 ईश्वर-पुत्र- -त्रः या ६, २६.
 ईश्वर-वचन- -नम् पा, पावा २,
 ३, ९; -ने पावा १, ४, ९७.
 ईश्वर-वश- -शात् वैष्ट ५, १ :
 २९.
 ईश्वरो (र-उ) पासिन्- -स्वी
 आमिष्ट २, ७, ११ : १५.
 ईष्^j, पाधा. भ्वा. पर. उच्छे; आत्म.
 गतिर्हिसादर्शनेषु, ईषते वृदे २,
 १०९[†]; या ४, २; १०, ११[†];
 १४, २६; ईषति निघ २, १४[†].
 ईषिरे आपध २, २३, ४; ५; हिध
 २, ५, १५८; १५९.
 ईषण- -णेन या ४, ७.
 ईषणिन्- -णिनः या ४, १६.
 ईषत्- -षतः वीश्री १, १३ : २१[†].

ईषमाण- -णाः शांश्री १२, १४, १;
 १३, १२, ३; आपश्री १७, १८, १;
 लुस् १, ११ : २९.
 ईषा^k - -षया आपश्री ७, ३, ८;
 आपशु ६, ५; या २, २५; ९,
 १०; -षा द्राश्री १४, १, १५;
 लाश्री ५, ५, १३; काशु २, २;
 आपशु ६, ९; वीशु १ : ४; हिशु
 २, ३८; ऋप्रा २, ५९[†]; -षात्
 जैश्रीका^l २९^m; -षाम् काश्री २, ३,
 १४; आपश्री १, १७, ७××; वीश्री;
 -षायाः वीश्री २१, १२ : २२;
 -षे आपश्री १०, २८, ३ⁿ; १२,
 ३, १३; वीश्री ६, १६ : ३ⁿ××;
 भाश्री १०, १९, १५ⁿ; माश्री;
 वैश्री १२, २० : ४ⁿ; १५, ३ :
 १२; १३ : १०^o; जैश्री^p ३ : ४;
 ९ : १३.
 ऐषीक- पागम ३८[†].
 ईषा(षा-अ)न्तर- -रे काश्री ७,
 ९, १२ⁿ; ९, १, ५.
 ईषित- -तः वीश्री ९, १८ : १४;
 भाश्री ११, १९, १३; हिष्ट १,
 १७, १.
 ईषत्^q आश्री ५, १, १; आपश्री ७, १,
 १७; ८, ६, ३; भाश्री ७, १, ९;
 वैश्री १५, १९ : ४; १६, २ :
 १५; हिश्री ४, १, १८; ८, ४, ४६;
 १६, ५, ३; ऋप्रा १, ४, २; तैप्रा २,
 १५; आशि ८, ३; पा २, २, ७;
 ६, २, ५४; पाग १, १, ३७; पावा

a) विप. (।उत्तरहता-। अनुस्तरणी- तु. कौस् [भू XLVII]) । b) बस. वा. क्वि. । c) व्यप. (शिव-) ।
 शिष्टं वैप १ द्र. । d) <√अश्र[व्याप्तौ] इति । e) वैप १ द्र. । f) व्यप. । तस्यापःयीयः इङ् प्र. ।
 g) विप. (ऋच्-) । h) विप. (सङ्- [अअ १, १९]), भाप. । विप. पक्षे ष्यण् प्र. ङसं. (पा ४, २, ३०) । i) विप. ।
 बस. । j) या ९, ८; १८ परामृष्टः द्र. । k) पाभे. वैप १, ८५८ h द्र. । l) = रथावयव-, तत्प्रमाण-स्तुति- ।
 वैप १ द्र. । m) ष्वात् इति पाठः ? ष्वाम् इति वा ष्वे इति वा शोषः (तु. सप्र. जैश्री ९ : १३) । n) पाभे.
 पृ २२२ m द्र. । o) अन्तरा, ईषे इत्यस्य स्थाने सप्र. आपश्री १२, १२, ६ अन्तरेषेण इति पाभे. । p) तु. पा ४,
 ४, ५९ । q) वैप ३ द्र. ।

२,२,७.

ईषच्छ्वा (त्-श्वा) स^३ -सान् पाशि
२४.

ईषत्-पिङ्गल- -लः या ३,१८.

ईषत्-प्रत्यवह (त >) ता- -ताम्
बौश्री २०,१२: ३.ईषत्प्रत्यवहत-शिरस^३ -रसम्
बौश्री २२, ७: १५.

ईषत्-प्रधान- -नान् पावा ५,३,६८.

ईषत्-स्पृष्ट^१ - -ष्टः नाशि १,४,८;
-ष्टम् शैशि ३४३; शौच १,३०;

-ष्टाः याशि २,५७.

ईषत्स्पृष्ट-ता- -ता आशि ८, ३.

ईषत्स्पृष्ट-स्व- -स्वम् आशि ८, २५.

ईषत् (स्पृष्ट-) शैशि ४५; पाशि २३.

ईषत्-स्पृष्ट-करण^० - -णाः आशि
३,५.

ईषद्-अर्थ- -र्थे पा ६,३,१०५.

ईषद्-असमासि- -सौ पावा ५, ३,
६७.ईषद्-उपतस,सा- -साः भाश्री ८,
५,१५; -सान् आपश्री १९,५,७; हिश्री २३,१,६; -सानाम्
भाश्री ८,६,१; हिश्री ५,२,३३.ईषद्-दु(म् >):-सु^० -सुपु पा ३,
३,१२६.ईषद्-विवृत-करण^० - -णाः आशि
३,६.ईषन्-नाद^३ - -दाः पाशि २४.

ईष्व- पाउ १,१५३.

✓ईह पाधा. भ्वा. आत्म. चेष्टायाम्,
ईहेते निघ २,१४†; ईहेत वृदे
८,१३२.

ईहा- -हायाम् पावा १,३,२४.

ईहा-गुण-संनिपात- -ते ऋप्रा
१३,१३.ईहा(हा-अ)र्थे- -र्थाः मीसू १०,
२,५०.ईहा^० पाग १,४,५७.

उ

ऊँ, ऊँ आश्री १, १०, ५; २, १,
२९××; शाश्री १२, २०, २६;
१४, ५६, २; ५७, ९; या १, ५^३;
८; ९^३; १०; ४, १६^३; २५;
१०, ५; २८; ११, २३; ३४^३; ४३;
पाग १, ४, ५७.उं, ऊं आश्री ५, २, २; उस् १, १८;
पावा १, १, १८; नाशि २, २, २.

उः आश्री ५, २, १.

✓उ पाधा. भ्वा. आत्म. शब्दे.

?उ^३ - शुप्रा ८, ३^३; याशि २, ९४.उ-कार- -रः आमिष्ट २, ४, १२: ७;
अप ४७, ३, ३; या १, ५; ऋप्रा;
-रम् लाश्री ७, ८, १७; विघ ५५,
१०; या १४, ३०; ३२; शुप्रा;
-रयोः कौशि १६; -रस्य अप्रा
१, ३, १४; शौच १, ७२; -रे
नाशि २, २, १.उकार-द्वय-पर- -रे नाशि २,
२, २^१.उकार-भूत^३ - -तान् उस् ६, ७.

उकार-वत्- -वान् भाशि २३.

उकारा(र-अ)कार-लोप- -पः
पावा ४, १, ६८.उकारा(र-आ)दि- -दि शैशि
१९८; पाशि १५; माशि १०,
५; याशि २, ४७; नाशि २, ५,

८; -दिः लाश्री ७, ४, ५.

उकारा(र-अ)न्त-निर्देश- -शात्
पावा ६, ४, ११०.उकारो(र-उ)द्वय^३ - -यः ऋप्रा
२, १७; -यान् शुप्रा ४, ७.उकारौ(र-ओ)कार-पर- -रौ
तैप्रा १०, २२.उ-गवा(गो-आ)दि- -दिभ्यः पा
५, १, २.उ-त्व- -त्वम् भाशि २२; -त्वे
पाप्रा ५, २.उ-पु^१ - -पू शैशि ४३; पाशि १७.उ-पू(पु-उ)पध्मानीय^१ - -याः आशि
१, १८.उ-भाव- -वः नाशि २, ५, ४^६.

उ-वर्जम् ऋप्रा १७, २७.

उ-वर्ण- -र्णः अप ४७, २, २; शुप्रा
४, ५५; शैशि ५१; ५७; -र्णम्
शुप्रा ७, ४; -र्णात् शुप्रा ४,
१३२; -र्णे तैप्रा २, २४; शौच
३, ४५; शैशि ५०.उवर्ण-प-फ-ब-भ-म-वकारो(र-उ)
पध्मानीय^१ - -याः याशि २, ९४.उवर्ण-पर^३ - -रे तैप्रा १०, ५.^१उवर्णा(र्ण-अ)कारा(र-अ)न्त-
-न्तेभ्यः पावा २, ४, ३५.उवर्णो(र्ण-उ)प(धा >)घ-
-घः हिश्री २१, २, ३४.उवो(व् श्रो)पो(प^३-उ)पध्म^१-
-ध्माः शुप्रा १, ७०.

?उ-स्थ- -स्थे ऋत ४, ३, २.

उकण-(> णी-)उणक- टि. द्र.

उक्त्य-(> औकथ्य- > औक-
थ्य-) १उक्त्य- टि. द्र.

a) विप. । बस. ।

b) विप. (निषाद-), नाप. (प्रयत्न-) । बस. ।

c) तस. > बस. ।

d) द्रस. ।

e) अव्य. ।

f) वैप १ द्र. ।

g) पाप्मे. वैप १, ८६१ b द्र. ।

h) वर्ण-विशेष- ।

i) °पदे इति लासं. ? ।

j) द्रस. उप. = प-वर्ग- ।

k) ओ° इति लासं. ।

l) वैतु. सोमयार्थः कस. ।

m) प = प-वर्ग- ।

उक्त-प्रसृ., उक्ति- उक्त्वा ✓वच् द्र.

१उक्त्वाम् आपश्रौ २४, १४, १३^४.

१उक्त्वेन सुध ४७.

१उक्थ^५- पाग ४, १, १०५; २, १११.

औक्थ- पा ४, १, १०५.

औक्थ- पा ४, २, १११; -क्याः

बौश्रौप्र ६:४.

औक्थ्यायन- -नाः बौश्रौप्र

४१: १०.

२उक्थ- ✓वच् द्र.

✓उक्ष^६, पाधा. भ्वा. पर. सेचने,
उक्षति कौस् ४२, १९; उक्षन्ति
या १२, ९; उक्षत > ता ऋप्रा
८, १५; तैप्रा ३, १०; उक्षेत्
द्रागृ ३, ३, ४.

उक्षेयत् वैगृ १, ९: ३.

उक्ष^६- -क्षः अप ४८, ६८^६.

उक्षण- -णम् वैगृ ५, १०: ५; १३:
१३.

उक्षत्- -क्षतः विध ९६, २३;

-क्षन्तम् माश्रौ ३, १, २८^६.

†उक्षन्ती- -न्तीम् कौगृ ३, २,

५; शांगृ ३, २, ८.

१उक्षन्^७- पाठ १, १५९; -†क्षणः

आपश्रौ १९, ३, २; बौश्रौ १७,

३६: १; आगृ १, १, ४; या १२,

९४; -कणि जैश्रौ २५: ४;

-क्षा काश्रौ १०, ९, १५; आपश्रौ

१९, १६, १६; बौश्रौ १०, ५१:

२६; माश्रौ ५, २, १०, ३३; वैश्रौ

१९, ६: ८२^६; हिश्रौ ९, ८,

४७; द्राश्रौ २, २, ४५; लाश्रौ

१, ६, ४२; कौगृ ३, २, १४^६;

शांगृ ३, ३, १०^६; कागृउ ४०:

६^६; वृदे ४, ४१; अप ४८,

६८^६; निघ ३, ३^६; -क्षणः

आश्रौ १०, २, २९; शाश्रौ १४,

६२, ३; आपश्रौ २२, २०, १६;

१८; बौश्रौ १८, ११: १९;

हिश्रौ १७, ७, २८^६; आगृ १,

१, ४; -क्षणम् हिश्रौ १३, ७,

१५; आम्रिगृ ३, २, १: १; विध

९०, १६; ऋअ २, १, १६^६;

भाशि ७३; -क्षणः काश्रौ २३,

४, ५; ७; ९; आपश्रौ २२, २०,

११; १२; १९; हिश्रौ १७, ७,

२२; २५-२७; २९; लाश्रौ ९,

१२, ११; -क्षणम् वृदे ५, ३१.

१औक्ष^८- -क्षम् कौस् ६७,

२३; पा ६, ४, १७३; -क्षाणि

बौश्रौ १५, १९: १; -क्षे कौस्

७२, १०^६.

उक्षन्तर- पा ५, ३, ९१.

उर्क्ष L, > क्षा]-वेहत्^९- -हतः

बौश्रौ १८, ४०: १५; २०; -हती?^१

ऋत ५, १, ८.

†उक्षा(क्ष-अ)क^{१०}- -ज्ञाय आपश्रौ

५, ५, १८; शाश्रौ ७, ४, १०;

आपश्रौ १६, ३५, १; बौश्रौ १३,

६: २; वैश्रौ १९, १: ६; हिश्रौ ११,

८, २१; २२, २, १५; ऋअ ३, २१.

†उक्षमाण, णा- -णा कौगृ ३, २,

६^१; शांगृ ३, ३, १; पागृ ३, ४, ४;

कागृ; -णा:^{११} आश्रौ २, ५, १७;

आपश्रौ ६, २७, ५; आपमं १, ८,

२; आगृ २, ९, ५; कौगृ ३, ४,

३; शांगृ ३, ६, ३; बौगृ १, ५, ६;

मागृ १, १४, ६; २, ११, १७;

-णान्^{१२} कागृ २७, ३; वागृ १५,

१७; -णाम् आम्रिगृ २, ४, १:

११.

†उक्षित, ता- -तः आपश्रौ ५, ६, ३;

हिश्रौ ३, २, ५६; अप ४८, ६८;

निघ ३, ३; -तम् माश्रौ ३, १,

२८^१; -ता अप ४८, ६८.

†उष्टार^{१३}- -रयोः आपश्रौ १६, १८,

६; माश्रौ ६, १, ५, ३८; वैश्रौ १८,

१५: १६; हिश्रौ ११, ६, २८.

उष्टृ^{१४}- -ष्टारः माश्रौ १, ७, ८, ५;

वाश्रौ १, ७, ५, ३; -ष्टारम्

आपश्रौ ८, २०, १२; माश्रौ ८,

२३, ९; हिश्रौ ६, ८, ८; कौस्

२०, २; -ष्टारौ काश्रौ ५, ११,

१३^{१५}; आपश्रौ ८, २०, ११;

बौश्रौ २६, ११: १२; माश्रौ ८,

२३, ९; वाश्रौ १, ७, ५, ३; हिश्रौ

६, ८, ८.

२उक्षन्^{१६}- > उक्षण्य^{१७}- > उक्षण्या-

यन्^{१८}- -ने वृदे ६, ६६^{१६}.

२औक्ष^{१९}- -क्षाः बौश्रौप्र १७: ३.

उक्षणोरन्ध्र- > औक्षणोरन्ध्र^{२०}- -न्ध्रम्

जैश्रौ २५: ४; -न्ध्रे द्राश्रौ २, २, ४५;

लाश्रौ १, ६, ४२; लुस् २, १०:

२९; ११: १९; निस् ९, १: ३०.

✓उख^{२१} पाधा. भ्वा. पर. गती।

१उख^{२२}- पाग ४, १, ५६; -खस्व

a) पाठः? अकाम् (< ✓अब्ज्) इति शोधः (तु. C., सप्र. बौश्रौ ३, २८: २२)। b) ऋषि-विशेष-।

व्यु? तु. BPG; उक्थ- इति पाका. १उक्थ- इति भाएडा.। c) वैप १ द्र.। d) =महत्-। e) पाभे.

वैप १, ८६२ C द्र.। f) विप. (चर्मन्- प्रसृ.)। g) =ओषधि-विशेष-?। h) वैप २, ३खं. द्र.। ऋत [पक्षे]

क्षा^{२३} इति। i) उप. ?। j) णाः इति पाठः? यनि. शोधः (तु. शांगृ.)। k) सप्र. णाः <> णान् <> हिगृ १, २९, २

सुमनस्यमानाः इति पाभे.। l) पाभे. वैप १, ८६२b द्र.। m) वैप १, ८६३ C द्र.। n) जो^{२४} इति पाठः? यनि. शोधः

(तु. सप्र. आपश्रौ. प्रसृ.)। o) =ऋषि-विशेष-। व्यु?। p) =नितम्ब-रूप-। व्यु?।

लाश्री ८, ८, ३०; निस् २, ६: २९;
गौपि २, ७, २८.
उख-द्व-पा (द >) दा^१ - -दाम्
माश्री २, १, ४, ३४.
२उख^२ - ऋखाय वीगृ ३, ९, ६; भागृ
३, ११ : २; हिगृ २, २०, १.
औखीय- पा ४, ३, १०२.
औखेय^३ - या: चव्यू २ : १४.
१उख्य^४ - ख्यस्य तैप्रा ८, २२; १०,
२०; १६, २३; -ख्याय आग्निगृ
१, २, २ : २८; वीगृ ३, ९, ६.
१उखम् शंघ ११६ : ५३^५.
उखा^६ - पाठभो २, २, ४६^६; पाग ४, ३,
५४; फि ६; -खया वाधूश्री ४,
१०७ : ४; ६; ७; -खा काश्री ८,
८, ३१; आपश्री; -खा: काश्री
२५, ७, १२; वीश्री; -खानाम्
वीश्री २२, २: १; ११; १३; ७: ३;
-खाम् काश्री १६, ३, २२××;
२५, ९, १५^७; माश्री ३, ५, १४^८;
-खाया: काश्री १६, ६, १; आपश्री;
-खायाम् काश्री ६, ७, १५××;
आश्री; -खायै वीश्री १०, १३ :
१८; १९; १७, २८: ४; वैश्री १८,
७ : ६; हिश्री ११, ३, ७; -खासु
वैगृ ५, २ : ७; अप्राय ६, ९;
अप ४५, २, २०; -खे माश्री
४, १, २०; -ऋखे आपश्री १,
१२, २; वीश्री १०, ६: ११; हिश्री
१, ३, २३; ४, ३; शुप्रा ५, ४२.
औख^९ - ख: शुभ्र २, ६७; -खम्

शुभ्र २, ६१; १६६; -खानि
शुभ्र २, ६४.
औखी- ख्यौ शुभ्र २, ६९.
उखा-कपाल- लम् काश्री १६, ७, ८.
उखा-कर्मन्- मंसु आपश्री १४, ८,
५; हिश्री १०, ८, ११.
उखा-कृत्- कृत् वीश्री १०, १ :
६; १६; -कृते वीश्री १०, ५ :
८; वैश्री १८, १ : ६५.
उखा(खा-आ)दि- दिषु वैश्री २१,
११ : १.
उखा-प्रवृञ्जन-प्रभृति^१ - तीन् वीश्री
२६, २८ : ३.
उखा-भेदन- ने काश्री १६, ७, ८.
उखा-वत् काश्री २२, १, २१; २६,
१, २५; ७, ४७.
उखा-संसर्जन- ना: आपश्री १५,
२, ७; भाश्री ११, २, १५;
-नानि वैश्री १३, ३ : १; -नै:
हिश्री २४, १, १३.
उखा-संभरण- गम् काश्री १६,
२, १; वाश्री ३, ४, १, ४२;
-गस्य वाधूश्री ४, ७५ : ४२.
उखासंभरणी (य >) या^२ - या
शाश्री ९, २२, ७; वैताश्री २८, ६;
-याम् आश्री ४, १, २१.
उखा-संभार- रै: माश्री ४, १, १३.
उखा-स्तुति- ति: शुभ्र २, ११८.
उखो(खा-उ)पश (य >) या^३ - ये
काश्री १६, ७, ९; ११.
२उख्य, ख्या^४ - पा ४, २, १७; २, ९५;

३, ५४; पाग ६, २, १३१; तैप्रा
११, ३^५; -ख्य: आपश्री १४, ३४,
११; वीश्री; -ख्यम् काश्री १७,
१, १९; आपश्री; -ख्यस्य काश्री
१६, ६, १५; -ख्याम् द्राश्री १४,
३, १४; ४, २; लाश्री ५, ७, १३;
८, २; -ख्ये काश्री १६, ७, ६;
अपश्री.
औख्येयक- पा. ४, २, ९५^६.
उख्य-भस्मन् - स्मना वीश्री ७ :
१९.

उख्यभस्मा(स्म-आ)वपन-
-नम् काश्री १६, ६, २३.
उख्या(ख्या-आ)सन्दी^७ - न्दीम्
वीश्री १०, १२ : ४५; वैश्री १८,
११ : ६^८.
उख्या(ख्य-आ)हृति- ति:
वाश्री २, १, २, २.

१उखेयाम् काश्रीसं २७ : १६.

उग(य >)णा^९ - णाम्य: शुप्रा ५,
४२^१.

उगणा-श्रुति- ति: तैप्रा १३, १२.
१उग्र^२ - ग: वीध १, ९, ४; वैध ३, १३, ३;
-ग्रात् वीध १, ८, १०; ९, ११.

उग्र-तस् () वीगृ ३, ३, ३२; ३३;
आपध १, ७, २०; २१; १८, १;
हिध १, २, ७७; ७८; ५, ७१.

उग्र-दुहितृ-, उग्र-पुत्री- पावा ६,
३, ७०.

उग्र-शूद्र^३ - द्रयो: वीश्री २१, १० :
७.

a) विप. १ बस. १ b) = ऋषि-विशेष-। व्यु. ?। c) डक् प्र. उत्सं. (पा ४, ३, १०२)। d) अपत्ये
यत् प्र. उत्सं. (पा ४, १, १३७)। e) पाठ: ? धुर्यम् इति शोष: (तु. अपु २१९, ३३)। f) वैप १, ८६३ j द्र.।
g) <✓उष् [दाहे] इति। h) पाभे. वैप २, ३खं. गर्भम् तैप्रा ३, ७, ३, ६ टि. द्र.। i) विप. १ साऽस्यदेवतीयः
अण् प्र.। j) विप. १ उत्स.>बस. १ k) विप. (इष्टि-) प्रयोजने छ>ईयः प्र. (पा ५, १, १११)। l) द्रस. १
उप. = मृत्तिका. १ m) विप. (अग्नि-, मृत्तिका- प्रभृ.)। n) = उख्याऽनुवाक-। o) °खेय° इति पागम. १
p) मल्लो. कस. १ q) औदुम्बरीम् उख्या° <> औदुम्बरीयुख्या° इति पाभे. १ r) °खाल° इति पाठ: ? यनि. शोषः
(तु. वीश्री १०, १४: ९; १०) s) वैप १ द्र. १ t) = [वर्णसङ्कर-] जाति-विशेष-। व्यु. ?। u) द्रस. १

२उग्र^a- (>औग्रय- पा.) पाग ४,
१,१२३.

३उग्र,ग्रा- प्रभृ. ✓*उजू (बधा.) द्र.

१उग्रवध^b वैश्रौ २१,२ : ७.

उग्रांगत^c- -ता: बौश्रौप्र १७ : ९.

✓उङ्खू पाधा. भ्वा. पर. गतौ ।

✓उच् पाधा. दिवा. पर. समवाये.

उचित, ता- पाउ ४, १८६; पाग

५,१,१२४; -तानाम् अप ७२,

३,१०; -ताम् ऋप्रा १५, ३२;

-ते वैश्रौ २०,२ : ५.

औचित्य- पा ५, १, १२४;

-स्यात् वृदे २,११८.

उचित-वेदना (न-अ) वस्थित—

मनस^d- -नस: शंघ १६१.

उचित-व्यय- -येन सुधप ८८ : १०.

१उचथ-> १औचथ्य-> औचथ-

१उकथ- टि. द्र.

२उचथ- ✓वच् द्र.

उचथ्य^e- -थ्य: ऋअ २, ९, ५०;

-ध्यानाम्^f आश्रौ १२,११,१.

२औचथ्य- -थ्य आश्रौ १२,

११, १;३; ४; आप्रश्रौ २४,६,

१२; बौश्रौप्र १२ : ३; १३ :

१; वैध ४,४,३;४; -थ्य: ऋअ

२,१, १४०; साअ १, ९७;२,

११०८; ११२४; -थ्यस्य वृदे

३, १४६; -ध्या: आप्रश्रौ २४,

६,१२.

उचथ्य-ज- -ज: वृदे ४,१४.

उचथ्य-बृहस्पती- -ती वृदे ४,११.

उचथ्य-भार्या- -र्या: वृदे ४,११.

उचथ्य-वत् आप्रश्रौ २४, ६, १३;

बौश्रौप्र १२,४; १३,३; वैध ४,

४,३;४.

उच्च^g- पाउभो २, २, ७४; -च्च:

माशि ५, ११; ६, १; याशि

२,२९; नाशि २,५,१; -च्चम्

काश्रौ ७, १, १६; वैश्रौ १५,

१७ : २; शैशि १३४; माशि २,४;

५,१; याशि १,२; नाशि २,२,५;

-च्चस्य शैशि १३५; याशि १,

२; -च्चा ऋषु १,११ : १६;

२,३ : १४; जैश्रौ ९ : २४ः;

जैश्रौका १०४; १६३; आप्रमं १,

११,२ः; कौश्र २,७,२८ः; शांश्रु

२, १२, १६ः; काश्रु ३०,३ः;

माश्रु १, १४, १६ः; वाश्रु १६,

१ः; ऋअप ८१, १०; ३२, १,

१९; ७०^h, ६, ५; शुश्रु ३, ६९ः;

ऋसाअ १, ४६७ⁱ; ऋया

३, २०; ९, ३६; उनिस् ५ :

२८ः; -च्चा: काश्रौसं ३० :

२; शंघ ७; ऋप्रा १२, २२;

-च्चात् द्राश्रौ १, ३, २५; ऋत

२, ६, ५; माशि ५, १; २; याशि

१, ५८; कौशि ३१; नाशि १,

८, ६; २, १, १०; -च्चानि आश्रौ

२, १५, १६; -च्चैः^k आश्रौ १,

३, १४×४; शाश्रौ; या ४, २४ः;

९, ३६; पाउ ५, १२; पा १, २,

२९; पाग १, १, ३७; कि १;

-च्चौ शैशि १७४; याशि १, ७.

उच्च-तम- -तम् काश्रौ ७, १, ११;

वैश्रौ १२, ४ : १.

उच्च-तर- -रम् वैश्रौ १५, १७ : २;

माशि ५, २; याशि १, ५८; कौशि

३१; नाशि १, ८, ६.

उच्च-त्व-कारक- -कान् कौशि ३.

उच्च-नीच- पाग २, १, ७२; -चस्य

नाशि १, ८, ७; पावा १, २, २९.

उच्चनीच-ता- -ताम् अप ५०,

१, १.

उच्चनीच-विशेष- -ष: शुप्रा १,

३२; -पात् नाशि १, १, १.

उच्च-नीच-प्लुत-समाहार- -रम्

नाशि १, ३, ७.

उच्च-भीम^l- -मम् माश्रौ २, ३,

७, ४ः^m.

उच्च-मध्यम-संघात- -त: नाशि

१, १, १०.

उच्च-श्रुतिⁿ- -तीनि ऋत ३, १, १.

उच्च-स्थान^o- -ने अप ५०, ६, २.

उच्चस्थान-गत- -ते याशि १, १२.

उच्च-स्वरितो (त-उ) दय^p- -या:

ऋप्रा ३, ३४.

उच्चा(च-आ)दि^q- -दय: याशि १, ६

उच्चा(च-अ)नुदात्त^r- -त्तयो: याशि

१, ९०.

उच्चा(च-अ)न्त^s- -न्तम् द्राश्रौ १,

३, २३.

उ(च>)च्चा-पर^t- -र: तैपा ५, ८.

उच्चा(च-अ)वग्रह-वर्जित^u- -तम्

माशि ६, ५.

उच्चा(च-अ)वच,चा^v- -चा पाग २,

१, ७२; -चा: निस् ३, १२:३३;

६, ९ : १९; आश्रु १, ७, १;

या १, ३; -चान् काश्रौसं ३० :

१; ३; लाश्रौ ९, ४, ५; या १,

३; -चानाम् निस् ६, १ : १७;

-चाभि: शाश्रौ १, १६, ७; -चेषु

वृदे २, ८९; या १, ४; ११; -चै:

अप १, ४९, ५; या ७, ३.

उच्चावच-चर(ण>)णा^w- -णा:

निस् ३, ८ : २०.

a) अर्थ: व्यु च?। b) पाठ: ? सप्र. बौश्रौ २८, ९ : २१ उपग्रये इति पाठे.। c) = ऋषि-विशेष-।
व्यु. ?। d) विप.। कस. > सस. > बस.। e) बहु. < २औचथ्य-। f) वैप १ द्र.। g) वैप ३ द्र.। h) कस.।
i) पाठे. वैप १ सत्यम् शौ ३, ३५, ४ टि. द्र.। j) विप.। बस.। k) दस. > बस.। l) दस.। m) वृस. > वृस.।

उच्चावच-जनपद^a- -दाः अप १, ८, ९.
 उच्चावच-दृष्टि^b- -ष्टीनि निसू २, २ : २२.
 उच्चा(च-अ)वच-मध्यम^c- -मानि वृदे ३, १५४.
 उच्चा(च-अ)हीन^d- -ने निसू १०, २ : १४, १५.
 उच्चैः-कर- -राणि तैप्रा २२, ९.
 उच्चैः-कर्मन्- -माणि काश्रौ ९, ६, १७.
 ऊच्चैर्-घोष^e- -पः वैताश्रौ ३४, ११; कौसू १६, १; अप ५, ४, ३; अग्र ५, २०; अपं २ : ४९; -पाय शुप्रा ४, १६१.
 उच्चैर्-देव(त>)ता^f- -ताः बौश्री २०, १८; ११; २२; १५; २३, १ : ३.
 उच्चैर्-न्याय^g- -यः शाश्रौ १, १, २८
 उच्चैर्-मन्यु^h- -न्यवः बौश्रीप्र ३ : ११.
 ऊच्चैर्-वाज-> ऽजिन्ⁱ- -जिⁱ बौश्री १७, ४१ : १८; आमिगृ १, ३, ४ : १२; भागृ २, २१ : १५; हिगृ १, १०, ६.
 उच्चैर्-वाद- -दः आपश्रौ २४, १४, ४.
 ऊच्चैर्वोदिन्^j- -दिⁱ आपमं २, ८, २; वैगृ २, १५ : १.
 १उच्चैः-श्रवस्^k- -वसम् शाश्रौ १२, १६, ११^h.
 ऊच्चैः-श्रवस्^k- -सः अप ४८, ९३^l; निघ १, १४.

२उच्चैः-श्रवस्^k- -वसम् भागृ २, ६, ४.
 ऊच्चैः-श्राविन्- -वी आपमं २, १४, १; आमिगृ २, १, ३ : २२; भागृ १, २३ : १५; हिगृ २, ३, ७.
 उच्चैस्-तर-> श्राम् आश्रौ १, ५, ६; शाश्रौ; पा १, २, ३५.
 उ(द्>)च्च/चद्>उच्च-चाटन- -ने अत्र २१, ३, २; २६, ४, १; ५, ३.
 उ(द्>)च्च/चर्^k, उच्चरति बौश्री १८, १९ : १; हिश्री ९, ५, ३८; ऊच्चरन् शाश्रौ १७, १२, ४; आपमं २, ५, १२^l; आमिगृ १, १, ४ : ११^l; भागृ १, ९ : १५^l; भागृ १, २२, ११^l; हिगृ १, ७, १०^l; गोगृ ३, ८, ५^l; उच्चरेत् आपध १, ३१, १^l; बौध १, ५, ६८; शैशि ३१४; याशि १, २४; २, ६२; ६९.
 उच्चारयति अप ३०^r, २, ४; उच्चारयेत् बौश्री २७, १ : ८; २९, २ : ६; कप्र २, १, ७; शैशि १५३; १५५; १५७; माशि ५, ९; १२, ८; याशि १, २३; २५; कौशि ३३; नाशि १, ६, १२; १४^r.
 उच्चार्थते कौशि ३; ४; नाशि २, ३, ३.
 उच्च-चरत्- -रन् याशि २, १९.
 उच्च-चरित- -तेन वृदे १, ४१.
 उच्चरित-प्रध्वंभि- -त्व- पावा १, ४, १०९.
 उच्च-चारⁿ- पाग ५, २, ३६; -रम्

द्राश्री ७, ३, १७; लाश्री ३, ३, १९; -रे हिध १, ८, १९^m.
 १उच्चरित- पा ५, २, ३६; -तः गौध १६, ११; -तस्य वाध १३, २९.
 उच्च-चारण- , णा- -णा नाशि २, ७, १०; -णे पाशि २.
 उच्चारण-विशेष- -वेण शैशि १६; ३३; ४८.
 उच्चारण-सामर्थ्य- -ध्यात् पावा १, ३, ९; ३, ४, ८९; ६, ४, १६३; ७, २, ८४.
 उच्चारणीय- -यम् शैशि ३३३; ३३९.
 उच्च-चारयत्- -यन् लाश्री ६, १०, १८.
 २उच्च चारित- -त्तात् नाशि १, ८, ३.
 उच्च-चार्य- -र्यम् शैशि २१६.
 उच्च-चार्यमाण- > ण-संप्रत्यायक- -त्व- -त्वात् पावा १, १, ६९.
 ऊ(द्>)च्च/चरण्य (<चरण-), उच्चरण्यन्^o आश्रौ २, ८, ३; शाश्रौ २, ४, ३; उच्चरण्येत्^o बौश्री ८, १९ : १९; वैश्री १६, २४ : १३; भाशि ११५; १२०.
 उच्चाता-स्वादिष्टा^p- -ष्टे निसू ९, ७ : १५.
 उ(द्>)च्च/चि (चयने) > उच्च-चय- -यस्य पावा ३, ३, ४०.
 उच्च-चित- -नम् या ४, २४; -तान् मैत्र ९; १४.
 उ(द्>)च्च/चृत् > उच्च-चृत्- -त्तम् या २, ५.

a) कस. । b) विप. । बस. । c) द्रस. । d) = ऋषि-विशेष- । व्यु. ? । e) विप. (प्रभूतधन-वत्-] हिरण्य-) । f) सपा. °वाजि <> °वादि इति पाभे. । g) वैप १ द्र. । h) पाभे. वैप १, ८६५ b द्र. । i) उच्चैः^o इति पाठः ? यनि. शोधः । j) = देव-विशेष- । बस. । k) पा १, ३, ५३ परामृष्टः द्र. । l) पाभे. वैप १, ८६५ c द्र. । m) सपा. उच्चरेत् <> उच्चारे इति पाभे. । n) नाप. । उप. कर्मणि घञ् प्र. । o) पाभे. वैप १, ६३० f द्र. । p) ऋग-विशेषयोः [यथाक्रमम् ऋ ९, ६१, १०; १, १] द्रस. ।

†उ(द्)च्/च्यु, उच्य्यावयतात्
आश्रौ ३,३,१; शांश्रौ ५,१७,६.
✓उच्छ्र^१ पाधा. भ्वा., तुदा.पर. विवासे,
उच्छति वृदे ३, ९; या २, १८;
उच्छन् आश्रौ ८, १०, ११;
उच्छन्तु आपमं १,१४,७१.
उच्छ(त.)न्ती-न्ती ऋञ्च २,
१,१२४१.
उ(द्)च्/च्छे(शं)ष्(कर्मणे)
उच्छेष्ण^२-णे माश्रौ ४,३,८.
उ(द्)च्/च्छे(शं)क्, †उद्...
शक्यम्, उद् (शक्यम्)^३ कौस्
३,८; १३७,४०.
उ(द्)च्/च्छे(शं)ङ्कु-ङ्कुम्
आज्यो १,५.
उ(द्)च्/च्छेद्/उच्छेद्य कौग्
३,१,२१.
उ(द्)च्/च्छिद्, उच्छिन्वात्
विध ३,१५;४२;४८;५३.
उच्छिद्यन्ते वाध १३,६१.
उच्छेत्तव काश्रौ २,६,३.
उच्छेदन-ने वौग् ४,११,१.
उ(द्)च्/च्छि(शि)रस्-रसि
वौग् २,१,१२०;८,१८.
उ(द्)च्/च्छि, छि(शि,शि)ष्,
उच्छिषति माश्रौ १,८,१,९; तैप्रा
१६,२५१; उच्छिषेत् आपश्रौ
१०,२०,१०.
उदशिशत् गो १, २५; उच्छिषः
आपश्रौ ३,१४,३१.
उच्छिष्यते वौश्रौ २, १४ : १२;
४,३ : ४; १०, ५४ : ६; माश्रौ

२,८, २१^६; वाश्रौ २,२, ४, ७;
वैश्रौ १९, ६ : ११६; निस् ३,
४ : ७; उच्छिष्येत आपश्रौ १७,
१७, १०; माश्रौ ७,३, ९^{१६}; ४,
४; वाधूश्रौ २,२१ : ५; ३,७९ :
१७; हिश्रौ १२,६,३.
†उच्छेषि शांश्रौ ४, १२, १०;
आपश्रौ ४,११,५;१६,१; माश्रौ
४,१७, २; हिश्रौ ६,३, ८; ४,
१८.
उच्छिषत्-यन् हिश्रौ ४,१, २२.
उच्छिष्ट-ष्टः कौग् ३,९,३५; शांग्
४,७,४०;गोग्; अप ४२,२,११;
-ष्टम् शांश्रौ १५,२३,१; काश्रौ;
-ष्टाः आश्रौ ५,६,३; वौश्रौ २०,
२१:२५; शंघ २२७; वौध १,५,
४५१; हिध १,५, १०; -ष्टात्
काश्रौसं ३३ : ५; -ष्टानाम् वौध
१, ५, २६; -ष्टानि वाध ११,
२१; -ष्टे^४ अत्र ११,७१; अयं
४ : २८१; -ष्टेन विध २३,५५.
उच्छिष्ट-स्वर^५-रम् काश्रौ २६,
२,३१;७,२;३१; आपश्रौ १५,
६,२२;१३,२;८;१४,६; वौश्रौ
९,५ : २०;१३ : ७; माश्रौ; -रे
काश्रौ २६,६, २०; आपश्रौ.
उच्छिष्ट-ता-ताम् वाध ३,४२.
उच्छिष्ट-दान-नम् शांश्रौ ४,
२१,१६.
उच्छिष्ट-पात्र-त्राणि वौग् ५,
७ : १२.
उच्छिष्ट-भक्षण-णे सुध ४३.

उच्छिष्ट-भक्षिन्-श्री आमिग् २,
७,१ : १.
उच्छिष्ट-भाज्-भाक् गोग् ४,
३, २८; -†भाजः आपश्रौ ६,
१२,२; वैश्रौ २,५ : १२.
उच्छिष्ट-भाव-वः वौध १, ५,
८९.
उच्छिष्ट-भोजन-ने वैग् ६,
९ : ८; काध २७३ : १.
उच्छिष्टभोजनीय^६-यम्
वाध २३,११.
उच्छिष्ट-लेप-पान् आपध १,
१५,२३; हिध १,४,८२.
उच्छिष्टलेपो (प-उ) पहत-
तानाम् वौध १,६,२७;३४.
उच्छिष्ट-लेपन-नम् शंघ
१४७.
उच्छिष्ट-वर्जन-नम् वौध १
२,३७.
उच्छिष्ट-संनिधि-धौ कप्र १,
३,९; विध २१,३;१५;७३,१७.
उच्छिष्ट-समन्वारब्ध-ब्धानाम्
वौध १,६,२६;३३; -ब्धे वौध
१,६,४८.
उच्छिष्ट-समीप-पे गौपि २,४,
२३.
उच्छिष्ट-हविस्-विषो विध
७१,४९.
उच्छिष्टा(ष्ट-अ)प्रतस् (ः) विध
७३,२५.
उच्छिष्टा(ष्ट-अ)नुच्छिष्ट-ष्टम्
कौस् ४७,३७; -ष्टेन कौस् २६,

a) या २, १८; १२,५ पावा ३,१, ३६ परामृष्टः द्र. । वैप १ अपि द्र. । b) उपसृष्टस्य धा. अपनयने
वृत्तिः (तु. सप्र. काश्रौ २६, ५,४ वैश्रौ ९,९ : ११ उन्नयति = स्तनेभ्योऽपनयतीत्यर्थः । पाभे. वैप १ परि. ?दीप्त् टि.
द्र. । c) पाभे. वैप १ परि. उद्...गेषम्, उद् (गेषम्) तै ३, २,४, ४ टि. द्र. । d) सपा. शांग् ३, १,
३ उद्वाप्य इति पाभे. । e) सपा. उच्छिषसि<>उच्छिषके इति पाभे. । f) पाभे. वैप १, ८६६ a द्र. ।
g) षति इति पाठः ? यनि. शोषः (तु. सप्र. वौश्रौ ४,३ : ४) । h) ष् इति पाठः ? यनि. शोषः (तु. आपश्रौ.) ।
i) =उच्छिष्ट-सङ्ग- (शौ ११,९,११) । j) =अवशिष्ट-कुण्ड- । k) प्रयोजने छ>ईयः प्र. उंसं. (पा ५,१,१११) ।

१८.
 उच्छिष्टा(ष्ट-अ)र्थे- -र्थम् अप ३,
 २,२.
 उच्छिष्टा(ष्ट-अ)शन- -नम् गौध
 १०, ५९; -नात् आपध १, ७,
 २७; हिध १,२,८४.
 उच्छिष्टाशन-वर्जम् आपध १,
 ७,३०; हिध १,२,८७.
 उच्छिष्टाशन-स्नापन-प्रसाधन-
 पादप्रक्षालनो(न-उ) न्मर्दनो (न-
 उ) पसंग्रहण- -णानि गौध २,
 ३९.
 उच्छिष्टा(ष्ट-अ) शुच्या (चि-आ)
 शौचि-पतित- -तः वैध २,१४,
 १७.
 उच्छिष्टिन्- -ष्टी बौध १,५,२३.
 उच्छिष्टो(ष्ट-उ)च्छेषण- -णो वाध
 ११,२३.
 उच्छिष्टो(ष्ट-उ)पहत- -त्तम् वाध
 १४,२१; विध ४८,२०^४.
 उच्-छिष्य आपध्रौ ११,७,३.
 उच्-छिष्य- पा ३,१,१२३.
 उच्-छेष- -षेण माध्रौ १,७,२,१६.
 उच्-छेषण^५- -णम् वैध्रौ ११, ५:
 ४; हिध्रौ ६,१, ३४; वाध ११,
 २४; विध ८१, २३; -णस्य
 आपध्रौ १९,३, ३; बौध्रौ १७,
 ३१:७; ३५: ६; वैध्रौ ११,
 ५: १; -णात् जैध्रौ २०: २;
 -णो वाध ११,२६; -णेन हिध्रौ
 १४, १, २०.
 उच्छेषणा (ण-अ) भाव- -वे
 आपध्रौ १,१४,२.

उच्छेयणीय- -यः बौध्रौ २४,
 १५, : ७.
 उ(द् >)च् √ छी (<शी), उच्छेरते
 हिध्रौ १३,५,१४^६.
 उ(द् >)च्-छी (<शी)र्षक- -के वैगृ
 ३,७: १७^६.
 उ(द् >)च् √ छु (<शु)च् (दीतौ)
 उच्-छोचन, - > °न-प्रशोचन^६-
 -नौ अत्र ६, १०४.
 उ(द् >)च्-छु (<शु)ष्म^६, १- ऋष्म:
 आपध्रौ ४,९,३; बौध्रौ ३,१८:
 १; भाध्रौ ४, १२, ७; वैध्रौ ६,
 १:४; हिध्रौ २,१,२४; ६,३,२;
 -ष्माः अप ३६,२, २; -ष्माय
 अप ३६,९,२३^६; -ष्मभ्यः अप
 ३६,१, १; -ष्मः अप १९^६,
 ४,१^६.
 उच्छुष्म-रुद्र- -द्राणाम् अप ३६,
 २,१; -द्राय अप ३६,९,२४^६.
 उच्छुष्म-रूप- > °पिन्- -पी अप
 ३६,२, ६.
 उच्छुष्म-शिखा- -खा अप ३६, १,
 १३.
 उच्छुष्म-हृदय- -यम् अप ३६, १,
 १२.
 उच्छुष्मन्^६- -ष्माणः अप १,७,१०.
 उच्छुष्मा- > °ष्मा-परिव्याध^६- -धौ
 कौस् ४०,१४.
 उच्-छून- उच् √ छिव (<शिव)द्र.
 उ(द् >)च् √ छृद्, उच्छृन्दन्तु वैध्रौ
 १८,२: ६.
 उच्-छेत्तवै, उच्-छेदन उच् √ छिद् द.
 उ(द् >)च् √ छृ (<श्र)थ्, ऋउद्

(थथाय) शांश्रौ ८,११,५; काश्रौ
 १६,५,१७; २५,१,११; आपध्रौ.
 उ(द् >)च् √ छि (<श्रि), उच्छ्रयति
 काश्रौ ६, ३, ७××; आपध्रौ;
 उच्छ्रयन्ति शांश्रौ १४,१०, १०;
 आपध्रौ; ऋउच्छ्रयामि कौगृ ३,
 २,३; शांगृ ३,२,६; पागृ ३, ४,
 ४; ऋउच्छ्रयस्व आपध्रौ ३,१, ९;
 शांश्रौ; माश्रौ २,२,३,१५^६; ५,२,
 ८,९^६; ऋउच्छ्रयतात्^६ आपध्रौ १०,
 ८, १२; शांश्रौ १६, ४, २;
 आपध्रौ २०,१८, ५; बौध्रौ १५,
 ३०: २; हिध्रौ १४, ४, १२;
 लाश्रौ ९, १०, ३; ४; वैताश्रौ
 ३६, ३१; उच्छ्रयत आपध्रौ
 १०,८, १३^६; उच्छ्रयीत आपध्रौ
 १५, १७, ७; उच्छ्रयेत् काश्रौ
 २१, ३, २६; बौध्रौ १७, ११:
 १४; २२, १२: १८; १९; २६,
 २४: ७; ७; १०; भाश्रौ ११,
 १७,९; हिध्रौ १५,८,१; जैश्रौका
 ७५; द्राश्रौ २, ३, ३; लाश्रौ १,
 ७,३; वैताश्रौ ११,२४.
 उद्...अश्रत् या ११, १०^६;
 ऋउद्(अश्रत्) शांश्रौ ११, १३,
 २६; ऋअ २, ७, ६२; ७६; वृदे
 ६,५,११.
 उच्छ्रियन्ते बौगृ ३,५,७.
 उच्छ्रापय^६ वाश्रौ ३,४,४,१६^६.
 उद्शिश्रियत् या ११, १०.
 उच्-छ्य- -यः कप्र १, ७,४; -यम्
 अप १,९,९; -ये अप २३,९,५.
 उच्-छ्यण- -णम् बौध्रौ ६, २७:

a) सपा. बौध ३, ६,७ ?काकोच्छि इति पाभे. । b) भाप., नाप. । c) वैप १ द्र. । d) पाभे.
 ६२८ c द्र. । e) ऋषि-विशेषयोः द्रस. । f) विप., व्यप. । g) =उच्छुष्म-मन्त्र- । h) अर्थः व्यु. ? च ।
 ४) =ओषधि-विशेष-द्वय- । व्यु. ? । j) उच्छ्र इति पाठः? यनि. शोधः (तु. मा ४, १०) । k) पाभे. वैप १ परि.
 उच्छ्रापय टि. द्र. । l) पाभे. वैप १ परि. उच्छ्रयतात् टि. द्र. । m) उच्छ्रा इति पाठः? यनि. शोधः (तु.
 मा २३, २६) ।

१४; माश्रौ ४, १, २७; -णानि
 आगृ ४, ८, २९; -णेन वाश्रौ ३,
 २, ६, १८.
 उच्छ्रयण-काल- ले काश्रौ ७,
 १, २९.
 उच्छ्रयत्- -यतः बौश्रौ २६, २४ :
 ४; -यन् बौश्रौ ४, ४ : २७;
 वैश्रौ १०, ९ : १; -यन्तम्
 आपश्रौ ९, १८, १०.
 उच्छ्रयिष्यत्- -ष्यन् बौश्रौ ११,
 २ : १४; २५, ३३ : १८; द्राश्रौ
 २, ३, १; लाश्रौ १, ७, १.
 १उच्छ्रय- पा ३, ३, ४९; -ये
 काश्रु ७, २२.
 उच्छ्रय(य>)यी^१- -यीभ्याम्
 काश्रौ ८, ३, २४; -य्या बौश्रौ
 १५, १७ : २६; -य्याम् बौश्रौ
 ८, १९ : १; १०, २७ : १; -य्यौ
 काश्रौ ८, ४, १६.
 उच्छ्रित, ता- -तः या ८, १५;
 -तम् काश्रौ १३, ३, १६; बौश्रौ
 २५, ३४ : ७; माश्रौ ६, १, ५,
 ३८; हिश्रौ १६, ६, ३३; वैताश्रौ
 १०, १०; कप्र १, १, ३; काश्रु ७,
 ७; -ताम् कप्र १, १, १५;
 -तायाम् द्राश्रौ १४, ४, १७;
 लाश्रौ ५, ८, १६; -तेषु शाश्रौ
 ६, ९, ९; -तैः अप ५५, ५, २.
 उच्छ्रिता (त-आ) सनो (न-उ)
 पविष्ट^२- ष्टः शांश्रु ४, ८, ५.
 उच्छ्रितो (त-ऊ) ङ- ङम् काश्रौ
 १५, ४, ३१.

उच्छ्रिति- -तीः विध ५१, ६३.
 उच्छ्रित्य काश्रौ २१, ३, २६; बौश्रौ.
 उच्छ्रियमाण, णा- -णः आपश्रौ
 ९, ११, २६?; -णम् द्राश्रौ २,
 ४, १; ३; लाश्रौ १, ८, १; ३;
 वैताश्रौ १०, ८; -णाम् माश्रौ २,
 २, ३, १४; आगृ २, ८, १६; कौसृ
 ४३, ८; -णाय शाश्रौ ५, १५, ३;
 काश्रौ; -णे वैश्रौ २०, २४ : ३.
 †उच्छ्रैयः^३ अप ३२, १, १२; अश्रु
 १९, १४.
 †उ (द्>) च् √ छ्व (<ध्व) ङ्च् ,
 उच्छ्रवञ्चस्व शाश्रौ ४, १५, ८;
 आमिष्ट ३, ७, ४ : १७?; ८, २ :
 ३३?; बौपि १, १५ : ४१?; २,
 ४, १?; अश्रु १८, ३.
 †उच्छ्रवञ्चमा (न>) ना- -ना
 शाश्रौ ४, १५, ८; आमिष्ट ३, ८,
 २ : ३५?; बौपि १, १५ : ४२?.
 उ (द्>) च् √ छ्व (<ध्व) स्, उच्छ्रव-
 सेत् गोश्रु ४, ५, ८; द्रागृ १, २, २२;
 माशि १२, ७; उच्छ्रवसेयुः बौश्रौ
 २९, ९ : १४?; द्राश्रौ ३, ४, १३.
 उच्छ्रवसन्- -सन् विध ५२, २६.
 उच्छ्रवास- -सः शाश्रौ ५, १७, ९;
 काश्रौ ४, ८, २७; वैश्रु ५, १ :
 २५; -सम् जैश्रौका १७७;
 -नान् काश्रौ १४, ५, २२; १७,
 ३, ७; आपध.
 उ (द्>) च् √ छ्व (<ध्व) > उच्छ्र
 (न>) ना- -ना अप्राय ३, १०?.
 उच्छ्रन-जङ्घ-वरण^४- -णः शंघ

३७७ : ९.

उच्यमान- √वच् द्र.

उच्यति^५- -तिम्^६ माश्रौ २, १, २, ९;
३, ३२; ४, ५, २.√उज् (वधा.)^७

इउम, प्रा^८- पाउ २, २८^६; -†म
 ५, ५, १९; शाश्रौ; -†मः आश्रौ
 ४, ८, ८××; शाश्रौ; आपमं २,
 १५, ५†; या ५, २४; १४,
 २४; -मम् आश्रौ ४, १२, २;
 शाश्रौ; या ६२, १४; -†मस्य
 शाश्रौ १२, १५, १; आपमं;
 -†मा आश्रौ ४, १२, २; वाश्रौ;
 -†माः आपश्रौ १२, ८, ३^७; २०,
 ५, १३; बौश्रौ १४, १२ :
 १२^७××; वैश्रौ १५, १० : ६^७;
 हिश्रौ ८, २, ४१^७; अश्रु;
 -म्राणाम् आपश्रौ २०, १५, ८;
 वौश्रौ १५, १ : १८; ५ : ११;
 -म्राणि वेज्यां ३६; -म्रान् विध
 ३, २०; १४, २; -†माम् आश्रौ
 ४, १३, २; द, ४, १०; शाश्रौ;
 -†माय शाश्रौ ४, १८, ५;
 वैताश्रौ; -०मे अशां ४, ३†;
 -मेण वृदे ६, १४१; -मेषु विध
 ३, २०; -मैः आपश्रौ २०, ४,
 २; बौश्रौ २१, १० : ८; हिश्रौ १४,
 १, ३८; अप १, ३९, ५†; अशां
 ९, ५†.
 †उम-कर्म-प्रसाध(क>)की^९-
 -०कि अशां २, ४; ५, ४.
 उम-गन्धि^{१०}- -न्धि विध ६६,

a) वैप २, ३खं. द्र. । b) कस. > सस. । c) उच्छ्र इति पाठः ? यनि. शोधः (तु. ८.) । d) वैप १
 द्र. । e) उच्छ्रन इति पाठः ? यनि. शोधः (तु. सपा. ऋ १०, १८, ११; १२) । f) छु इति पाठ ? यनि.
 शोधः । g) विप. । वस. > वस. । h) अर्थः व्यु. च ? । i) सप्र. आपश्रौ १०, ९, १५ निष्टकर्मम् इति
 पाठे. । j) या ६, ८ परामृष्टः द्र. । k) < √ उच् इति । l) पाठे. वैप १, ८६८ b द्र. । m) पाठे. वैप १,
 ७६४ i द्र. । n) विप. । कस. > वस. उप. स्त्री. ङीष् प्र. डसं. (पा ४, १, ४१) । o) विप. । वस. । इकारान्तादेश
 डसं. (पा ५, ४, १३५) ।

५; -न्धीनि शंघ १९७; विध ७९, ५.

उग्र-चे(घा >)घ^१- घानाम् आमिग २, ५, १ : ४.

उग्र-तेजस्^१- पाउवृ ४, २२७; -जसाम् अशां ३, ४.

उग्र-दण्ड- > ंण्डन्- ंण्डी अप ५०, ६, ४.

उग्र-बाहु^१- -हवः दंवि १, ६१.

उग्रम्-पश्य- पा ३, २, ३७.

उग्र-रूप^१- -पः अप ६८, ४, ४.

उग्र-वध^१- -०ध वैश्रौ २१, २:७.

उग्र-वाच्- -वाच्चा अप ७०^३, ११, १४.

†उग्र-वीर^१- रम् आश्रौ ४, १२, २; आमिग २, ३, ५ : २२.

उग्र-से(ता >)न^१- -नम् शांश्रौ १६, ९, २.

उ(ग्र >)ग्रा-देव^१- -वम् ऋप्रा ९, २२१.

१ओजस्^१- पाउ ४, १९२; पाग ३, १, १२; -†जः आश्रौ १, ५, १७^३××; शांश्रौ; वैताश्रौ ६, ८^०;

कौसू १, १९, १०^१; शांगृ १, २७, ७^१; अप ४८, ७५^६; निघ १, १२^१; या ६, ८^१; २३; १४, १७;

-†जसः हिश्रौ १३, ५, १४; या ८, २; -†जसा आश्रौ १, ६, १××; शांश्रौ; या ५, ५; ६, ८;

८, २९; २, ५; १०, १३; -†जसे शांश्रौ ७, ५, १३××; काश्रौ.

ओजसिक- पा ४, ४, २७. ओजसीन, ना- पा ४, ४, १३०;

-नाम् आश्रौ ४, १२, २१^१.

ओजस्-काम- -मः आपश्रौ २२, ६, १९; २३, ३; हिश्रौ १७, २, ६३; लुसू ३, १५ : ४; ९; -मस्य आपश्रौ ६, १५, १; बौश्रौ १४, १७ : १६^२; भाश्रौ ६, १४, १४;

वैश्रौ २, ९ : ३; हिश्रौ ३, ७, ११३; -माः आपश्रौ २१, १, १४; २३, २, ११; हिश्रौ १६, १, ११.

ओजस्-कर^१- -०र वाश्रौ ३, २, १, ६०^१.

ओजस्य, स्या^१- पा ४, ४, १३०; -†स्या माश्रौ ५, २, १, ३; ४.

†ओजस्-वत्- -वत् बौश्रौ १८, ९ : १२^२; -वते बौश्रौ १४, ११ : ११; १३; १८, ९ : १०; -वन्तम् आश्रौ ६, ३, २२^६;

बौश्रौ १४, ११ : १४^६; १८, ९ : १०; वैताश्रौ २५, १४^६;

-वान् आपश्रौ १६, ३३, १; बौश्रौ १८, ९ : १३; माश्रौ १, ४, १, २७.

ओजस्वती- -त्यः निसू २, ११ : २४; अप ४८, ७६^१.

†ओजस्-विन्- -०विन्^१ आश्रौ ६, ३, २२; शांश्रौ १०, ३, १०; आपश्रौ १३, ८, ९; बौश्रौ १४, ११ : १३; वैश्रौ १६, ९ : १४;

-विन्म् सु ५, १९; शंघ ११६ : ४४^९; -वी शांश्रौ १०, ३, १०^१†^६; बौश्रौ १४, ११ : १३†^६;

१७ : १९.

†ओजस्विनी- -नी बौश्रौ २, ६ : २७; १०, १३ : २०; ४९ : ६; वैश्रौ १, ७ : १०; १८, ७ : ७; आपमं २, १७, १५^१; -नीः आपश्रौ १६, ३३, १; वाश्रौ ३, ३, २, १५; वैश्रौ १८, १६ : ५७; ६१; हिश्रौ ११, ८, ११.

?ओजःसंस्थम्^१ वैताश्रौ २५, १४†.

ओजः-सहो (हस्-अ) म्भस्-तमस्- -मसः पा ६, ३, ३.

ओ(जस् >)जो-दा^१- -दाभ्याम् बौश्रौ २६, ११ : १२†.

ओ(जस् >)जो-मानी^१- -नीम् कौसू ५३, २; ५४, १९.

†ओ(जस् >)जो-विद्^१- -वित् आपश्रौ १३, ८, ९; बौश्रौ १४, ११ : १६; वैश्रौ १६, १० : १.

ओजस्^१- > √ओजाय^१ पावा ३, १, ११.

†ओजिष्ठ, छा^१- -०ष्ठ काश्रौ १२, ३, ६^१; चाअ २ : १२; -ष्ठ शांश्रौ १२, ५, ७; वाधूश्रौ ४, ५४ : ८; हिश्रौ ९, २, २४; १७, ८, २४; ऋअ २, ६, ३३; शुभा २, ४०^१; -ष्ठम् शांश्रौ ११, ८, १; ११, ७; ऋअ २, ५, १०; उनिसू ४ : १२; -ऽष्टाः आपश्रौ २३, ८, ६; १३, ८; हिश्रौ १८, ३, ३; ४, ४४; -ष्टाय काश्रौ ८, १, १५; बौश्रौ ६, १९ : २; माश्रौ २, २, १, २; वाधूश्रौ ४, ५४ : ७; वैताश्रौ १३, १६.

a) विप. । बस. । b) वैप १ द्र. । c) बस. उप. भाप. ? । d) = [पारिक्षितीय-] नृप-विशेष- । बस. ।

e) पाभे. वैप १, ८७१ e द्र. । f) पाभे. वैप १, ८७१ b द्र. । g) = उदक- । h) पाठः ? ँने इति शोषः (तु. वैप १, ८७३ c, d) ।

h) उस. उप. टः प्र. उसं. (पा ३, २, २१) । j) सपा. मै ४, ७, ३ ंकार इति पाभे. । k) पाभे. वैप १, ८७३ m द्र. । l) = नदी- । m) पाभे वैप १, ८७३ g द्र. । n) पाभे. वैप १, ८७३ i द्र. । o) पाठः ? तु. सप्र. मा ८, ३९ ओजिष्ठस्वम् इति । ओजस्-वान्, स्वम् इति C. शोषः । p) = ओपधि-विशेष- । व्यु. ? ।

† भोजीयस्^a- -यः आपश्रौ १४, ६, ८; १७, १७, १; हिश्रौ ९, ८, २७.
 भोजीयसी- -सी आपश्रौ १७, १७, ४; वाश्रौ ३, २, ६, ३०; हिश्रौ ९, ८, २६.
 उज्जयनी^b- पा, पाग ४, २, ८२; (> भौज्यनक- पा.) पाग ४, २, १२७.
 उज्जहि, हि-जोड- प्रसृ. उद्ध(द्/ह)न् द्र.
 उ(द्>)ज्/जि, उज्जयतु काश्रौ ३, ५, १९; उदजयत् शाश्रौ १४, ४९, १; वौश्रौ ११, ७: ३१†; वैश्रौ १७, १३: १०†; हिश्रौ १३, १, ५४†.
 †उद्... जिगाय माश्रौ ६, २, ३, ८; वाश्रौ २, २, २, १२; उज्जे-प्यति वाधूश्रौ ४, ५: ६; †उज्जे-षम् शाश्रौ ४, ९, ५; आपश्रौ ४, १२, ४; वौश्रौ ३, १९: ५; भाश्रौ ४, १८, २; माश्रौ १, ४, २, १६^२; वाश्रौ १, ३, ६, २; वैश्रौ ७, ६: १०; हिश्रौ ६, ३, १२; शुप्रा ६, ८.
 उज्-जिगीषत्- -षन् शाश्रौ १४, ४९, १^२.
 उज्-जित- -तम् शाश्रौ १४, ४९, १.
 उज्-जिति- -तयः चाश्रौ १४: ७; -तिभ्यः काश्रौ १४, ५, ३१; -तिम् शाश्रौ ४, ९, ५; काश्रौ १०, ७, १३; आपश्रौ ४, १२, ४;

वौश्रौ ३, १९: ४, ५; भाश्रौ ४, १८, २; माश्रौ १, ४, २, १६^२; वाश्रौ १, ३, ६, २; वैश्रौ ७, ६: १०; हिश्रौ ६, ३, १२; -तिः आपश्रौ १८, ४, १९; वौश्रौ ११, ७: ३१; वाश्रौ ३, १, १, ४१; वैश्रौ १७, १३: १०; हिश्रौ १३, १, ५४.
 उज्-जे^c- -वेभ्यः शाश्रौ १५, १, २१; काश्रौ १४, २, ११.
 उज्जिहान^d- (> भौजिहानि- पा.) पाग २, ४, ५९.
 उज्-जिहीर्षत्-, ^०पुं- उद्ध(द्/धृ< >ह) द्र.
 †उ(द्>)ज्-ज्य^e- -ज्यम् द्राश्रौ १०, २, ८; लाश्रौ ३, १०, ७.
 उज्ज्य-धन्वन्^f- -न्वानः काश्रौ २२, ३, १७; लाश्रौ ८, ५, ८.
 उ(द्>)ज्/ज्वल्, उज्ज्वलति पा ७, २, ३४; उदज्वलत् वृदे ५, २१.
 उज्ज्वल वाधूश्रौ ४, ७५: ३८; उज्ज्वलितास्मि वाधूश्रौ ४, ७५: २७.
 उज्-ज्वल, ला- -लः विध ९०, २३; ९१, १५; -लाः अप ७०^३, ४, ५.
 उज्ज्वल^g-वत्- -वत् अप ६८, २, ४०.
 उज्-ज्वाल्य वैगृ ६, १: २१; वैध २, ३, ४.
 ✓उज्ज् पाधा. तुदा. पर. उत्सर्गे।
 उज्जक- पाउ २, ३७.

उज्जि (त >) ता- -ता वैगृ ५, ९: ४.
 उज्ज^h पा, पावा १, १, १७ प्रसृ.
 ✓उज्ज् पाधा. भ्वा. तुदा. पर. उज्जे, उज्जति पा ४, ४, ३२.
 उज्ज- पा, पाग ६, १, १६०; -ज्जम् कौगृ ३, ११, ४४^h; वागृ ९, २०.
 उज्ज-वृत्ति- -तिम् वैध १, ५, ५; -त्या वैध १, ७, ६.
 उज्ज्वृत्ति-ता- -ता बौध २, १, ४७.
 उज्ज-वृत्तिक- -काः वैध १, ८, १.
 उज्ज-शिलⁱ- -लम् शागृ ४, ११, १३^h.
 उज्जन्- -ज्जतः शागृ २, १७, १^l.
 उज्जयमान- -नस्य कौगृ ३, १०, ३५^l.
 उज्जयित्वा बौध ३, २, ११; १२.
 ✓उद् पाधा. भ्वा. पर. उपधाते।
 उडप^k- (> भौडपिक- पा.) पाग ४, ४, १५.
 उडव^k- > भौडवि^k- (> भौड-वीय- पा.) पाग ५, ३, ११६.
 उडु^l- पाउभो २, १, २६.
 उडुप^m- पाउभो २, २, २१५; (> भौडुप-, णिक- पा) पाग ४, २, ७५; ४, १५.
 उडुलोमन्ⁿ- पाग ४, १, ९६.
 भौडुलोमि- पा ४, १, ९६; -मिः वौश्रौ ४५: ३.

a) वैप १ द्र.। b) = नगरी-विशेष-। व्यु. ?। उज्जयिनी- इति पासा., पासि.। c) = मरुद्-विशेष-। व्यु. वैप १, ८७५ C द्र.। d) व्यप.। व्यु. ?। e) विप.। बस.। f) = वर्ण-विशेष-। g) = जिदनुबन्धकम् अन्वय.। h) सपा. सिलमुज्जम् <> उज्जशिलम् इति पामे.। i) समाहारे द्वस.। j) सपा. उज्जतः <> उज्जयमानस्य इति पामे.। k) अर्थः व्यु. च ?। l) = नक्षत्र-। व्यु. ?। m) = प्लव-। व्यु. ?। <✓भाद् इति पाउभो., < उडुं- (जल-) + प- (<✓पा [रक्षणे]) इति अभा. शक.। n) = ऋषि-विशेष-। व्यु. ?।

उ(ड् >)इ √डी> उड्-डीयमान-
-नान् अप ६८, २, २७.

उणक्^अ (> ङ्की- पा.) पाग ४,
१, ४१.

†उत, >ता^० आश्रौ १, ९, १××;
शांश्रौ; माश्रौ २, ३, ३, ७^६;
द्राश्रौ ४, २, २^०; लाश्रौ २, २,
११^०; कौण्ड ४, १३, ९^६; शाण्ड ४,
१८, १^६; पाण्ड ३, २, २^६; हिण्ड २,
१०, ६^६; या १, ६; ११; २,
२८^६; ४, २४^६; २५; १०,
२२; २३; २६; २७; ११, ४३^६;
१२, ३१; ३३^६; ४६^६.

उना(त-अ)पि- -पिभ्याम् पावा ३,
३, १४१; -प्योः पा ३, ३, १४१;
१५२.

उताप्या(पि-अ)दि- -दिषु पावा
३, ३, १४०.

उता(त-अ)हो पा ८, १, ४९; ७२;
पाग १, ४, ५७.

†उतो^० वाश्रौ १, ४, ४, १८; कौस्
३९, ७; या १, ८; ५, २३; भास्
१, ११.

उतथ्य^१- पाउभो २, ३, १७.

भौतथ्य- -०थ्य हिश्रौ २१,
३, ९; -थ्यः शुश्र १, ३२३;
-थ्याः हिश्रौ २१, ३, ९.

†उतथ्य-वत् हिश्रौ २१, ३, ९.

उतूल^१- -०ल पाण्ड ३, ७, २^६.

उतूल-परिमेह- -हः पाण्ड ३, ७, १.

†उतोदिर^१ कौस् १०७, २^६.

उत्क- पा ५, २, ८०.

१उत्कट- (> °टिक-)इकट- टि. द्र.

२उ(ड् >)त्-कट- पा ५, २, २९;
-टम् शंघ १९७.

उत्कट-शलाका- -कया आपश्रौ २१,
१८, ८; हिश्रौ १६, ६, १५.

उ(ड् >)त् √कण्ड् > उत्-कण्डा-
(> °ण्डित- पा.) पाग ५, २,
३६.

उत्-कण्डुल- पाउभो २, ३, १०९.

†उत्कण्डक- -के आमिण्ड २, ७, ७ : ४.

उत्क(ड्/स्)न्द् पावा ८, ४, ६१.

उ(ड् >)त् √कम्प, उत्कम्पयति
काश्रौ २६, ६, ४.

उत्-कर- प्रसृ. उत् √कृ द्र.

उत्-कर्ध- प्रसृ. उत् √कृष् द्र.

उत्-कल्प्य उत् √क्लप् द्र.

उ(ड् >)त्-काकुद्- पा ५, ४, १४८.

उत्-कार- उत् √कृ द्र.

उ(ड् >)त् √काश > उत्-काश^म-
-शम् बौश्रौ ७, ४ : १.

उ(ड् >)त्-काष्ठ-> °ष्ठा(ष्ठ-अ)श्म-
लोष्ठ-लोमा(म-अ)दि- -दीन
वंश्रौ ११, १० : ७.

उत्कास^१- पाग २, ४, ६३.

उत्-किर-, उत्-कीर्ण- उत् √कृ द्र.

उत्कील^१- -लः ऋश्र २, ३, १५; शुश्र
२, ५३; साश्र १, ६०; -लस्य
शुश्र २, ३५९.

उ(ड् >)त् √कुच् > उत्-कुचत्-
-चसु कौस् १५, १७.

उत्कुचती- तीषु कौस् १५,
१४.

उत्-कोच^म- > उत्कोच-शुल्क-
संप्रास- -सम् विध ५८, १०.

उत्कोचो(च-उ)पजीविन्-
-विनाम् विध ५, १८०.

उत्कुटक^०- -कः विध ६८, १७.

उत्कुटिक^०- -कम् वैध २, ९, २.

उ(ड् >)त् √कुप् > उत-कुप्य
बौश्रौ १०, १० : ९.

उत्कुपी^०- -पीम् बौश्रौ १०, ९ :
१५.

उत्-कूल^०- -लम् अप १४, १, १३.

उ(ड् >)त् √कृ, †उत्कृषे माश्रौ
२, १, २, ११; १३.

उत्...कुरुते वाधुश्रौ ३, ५ : ५.

उ(ड् >)त् √कृत् (छेदने), उत्कृन्तति
आपश्रौ ७, १९, २; माश्रौ १, ८,
४, १६; वैश्रौ १०, १५ : ६; हिश्रौ
४, ४, १९; †उत्कृन्तामि^१ आपश्रौ
७, १९, २; भाश्रौ ७, १४, १५;
हिश्रौ ४, ४, १९.

उत्कृत्यन्ते विध ४३, ४२.

उत्-कृत् > °त्त-नासि(का >)क^१-
-कम् कप्र २, १०, १०.

उत्-कृत्य आपश्रौ २०, २५, १३;
वाश्रौ.

उ(ड् >)त्-कृति^१- -तिः शुश्र ४,

a) अर्थः व्यु. च ? । b) उकण- इति पाका. । c) वैप १ द्र. । d) वैप १, ९९८ p द्र. ।

e) पाभे. वैप १, ८७६ ० द्र. । f) पाभे. वैप १, ८७७ g द्र. । g) पाभे. वैप १, ९४३ f द्र. । h) पाभे. वैप १,
८७५ j द्र. । i) = ऋषि-विशेष- । व्यु. ? । j) = [दुर्विनीत-] दास- । व्यु. ? । k) उत्तूल परिमीढः इति पाठस्य
स्थाने सप्र. आपमं २, २२, ६ उलेन परिषीतः इति, हिण्ड १, १४, २ ऊलेन परिमीढः इति च पाभे. । l) पाठः ?
शोषार्थं वैप १ परि. द्र. । m) भाप. = समीप- । n) भाप. > नाप. । o) = आसन-विशेषाऽवस्थित-
। उ. भाष्यम् = ऊर्ध्वजानु- इति । विप. । व्यु. ? । p) = उड्कुषी- (वैप २, ३ खं.) = [तृणैः सुसंबद्धा-] उल्का-
इति भाष्यम् । व्यु. ? । q) पाभे. वैप १ प्रोक्षामि मा २२, ५^६ टि. द्र. । r) विप. । बस. ।

s) = छन्दो-विशेष- । प्रास. ।

वैप ४-प्र-८०

१९०; ऋषा १६, ८९; ९२;
 उनिस् १: ६; ९; २: १९; पि
 ४, १; -ते: पि ४, २.
 उ(द्>)त्/कृष्, उत्कर्षति आपश्रौ
 १२, २५, १४; माश्रौ २, १, ४,
 ३८; उत्कर्षेत् आपश्रौ १२, २५,
 १४; मीस् ५, १, २८; ३०; ३२.
 उत्कृष्येत मीस् ९, ३, ३७;
 उत्कृष्येरन् शाश्रौ १५, १, २८.
 उत्-कर्ष- पाग ५, २, ३६; -र्ष:
 मीस् ३, ३, २५; ६, ५, ३९; ९,
 ३, १९; ३७; ११, ३, ४७; ५२;
 ५३; -र्षात् मीस् ५, ४, १०;
 -र्षे विध ३७, १; मीस् ५, १, २३;
 ११, ३, ५२; -र्षभ्याम् गौध ४,
 २२.
 उत्कर्षां(र्ष-अ)पकर्ष- -र्षयो:
 पावा ५, ३, ५७.
 उत्-कर्षित- पा ५, २, ३६.
 उत्-कृष्ट- -ष्ट: अप ५१, २, ५;
 -ष्टस्य मीस् ३, ६, २१; -ष्टा:
 काश्रौसं ३०: २.
 उत्-कृष्य आपश्रौ २४, १४, १३^३;
 माश्रौ २, १, ४, १८; २, २, ३६;
 ३, ६, १५; माग १, १०, ७; हिग
 २, १५, ८.
 उ(द्>)त्/कृ (विक्षेपे), उत्किरति
 काश्रौ ८, ५, ८; उत्किरन्ति शाश्रौ
 १७, १०, ५; उद्...किरामि
 काश्रौ ८, ५, ९^१; उत्किरेत् कप
 २, ८, २.
 उत्-कर^३- पाग ४, २, ९०; -र:
 काश्रौ ५, ३, १६; आपश्रौ २, १,
 ७××; माश्रौ; -रम् आश्रौ १,

१, ४; शाश्रौ; -रस्य बौश्रौ ६,
 २२: २३××; माश्रौ; -रात्
 आपश्रौ ११, ९, ४; बौश्रौ; -राय
 हिश्रौ ५, २, १५; -रे काश्रौ २,
 ६, १२××; आपश्रौ; -रेषु गोश्रु
 ४, ४, ३०.
 उत्कर-गामि(न् >)नी- नी
 जैश्रौका ६७.
 उत्कर-चात्वाल- -लौ जैश्रौका
 ९१.
 उत्कर-देश- -शात् बौध १, ७,
 १९; -शे आश्रौ १, ४, १३; ८, १३,
 २८; आपश्रौ १, १९, ४; बौश्रौ १,
 ६: ३०; माश्रौ ५, २, ४, १४; वैश्रौ
 १४, ४: १०; वैताश्रौ २, ४.
 उत्कर-वत् काश्रौ ५, ३, २६.
 उत्करा (र-अ) न्त^१- न्ते
 जैश्रौका १३३.
 उत्करा (र-अ) न्त^१- न्तम्
 काश्रौ ९, ८, १८.
 उत्करीय- पा ४, २, ९०.
 उत्-कार- पा ३, ३, ३०.
 उत्-किर- -रौ शाश्रौ १७, १०, ५.
 उत्-कीर्ण- > णी-समा(म-अ)प्र^१-
 -प्र: काश्रौ १४, १, २२.
 उ(द्>)त्/कृष् > उत्-कल्प्य
 माश्रौ १०, ९, ५.
 उत्-कोच- प्रश्रु. उत्/कृष् द.
 उ(द्>)त्/कृष्, उत्क्रामति काश्रौ
 ७, २, १४××; माश्रौ; उत्क्रामत:
 वाधुश्रौ ४, १३: ७; उत्क्रामन्ति
 वैताश्रौ २४, ४; कौश्रु ५, ३, २६;
 हिपि ३: ६^१; ऋत्क्राम काश्रौ
 १६, २, १९; आपश्रौ; अश्रु ८,

१^१; भाशि ६८; उत्क्रामत हिश्रौ
 ७, ८, ६१^१; ऋत्क्रामत बौश्रौ
 १४, २९: १३; अप; उद्...
 अक्रमन् अप ३२, १, १७^१;
 ऋत् (अक्रमन्) कौस् ५१, १;
 अश्रु ४, ३; उत्क्रामेत् द्राश्रौ १४,
 १, १२; १३; लाश्रौ; उत्क्रामेयु:
 द्राश्रौ ४, १, ९; लाश्रौ २, १, ८.
 उत्क्राम आश्रौ १२, ९, १८;
 ऋत्क्रामेत् आपश्रौ २, ११, ३;
 बौश्रौ; उदक्रामेत् काश्रौ १६,
 २, २०; आपश्रौ १६, २, ११^१.
 उत्क्रमयति काश्रौ १६, २, १०;
 १९; बौश्रौ; उत्क्रमयन्ति हिश्रौ
 ११, १, २३; उत्क्रमयेत् आग
 १, ८, ३; द्राग १, ३, २६.
 उत्-क्रस्यत्- -स्यते तैप्रा १६, २२^१.
 उत्-क्रम- -मः, -मम्, -मांय वैताश्रौ
 २७, २७.
 उत्-क्रमण- -णम् काश्रौ १९, ५,
 १७.
 उत्-क्रमय आपश्रौ १६, २, ११;
 लाश्रौ ९, ९, २२.
 उत्-क्रम्य शाश्रौ ४, १२, ४; १०,
 २१, १६; काश्रौ.
 उत्-क्रान्त, न्ता- -न्ता: आमिग ३,
 ४, ४: ३५; बौपि ३, ४, २१;
 -न्ताम् कौस् ७५, २७; -न्ते
 काश्रौ २०, ८, १७; वाश्रौ २, १,
 १, १४; गौपि १, १, ९; -न्तेषु
 आमिग ३, ४, १: ५; १०, १:
 ७; बौपि ३, १, २०; ५, २.
 उत्क्रान्त-श्रेयस्^१- -यस: वैताश्रौ
 ३०, २^१.

a) मूको. अनु C. आकर्षेत् इति शोधकः?। b) वैप १ द.। c) षस.। का° इति पाठः? यनि.
 शोधः। d) विप.। बस.। e) विप.। कस.>बस.। f) सप्र. तैप्रा २, १, ३, ५ उद्वासयति इति पाठे.।
 g) उत° इति पाठः? यनि. शोधः। h) का° इति पाठः? यनि. शोधः। i) तु. काश्रौ १९, १, १-३; वैतु.। C.
 श्रेयाः इति प्रकल्पकः (तु. अत्रत्यं १मं ३यं च सूत्रम्)।

उत्-क्रान्ति^a - न्तिः शांश्री १४, ७१, १; वैताश्री २७, २७; -न्तिम् शांश्री १४, ७१, २; वैताश्री २७, २७; -न्त्यै वैताश्री २७, २७.
 उत्-क्रामत् - मत्सु या १३, १२; -मन्तम् वाश्री ३, ४, १, २६.
 उत्-क्रामय्य बौश्री १५, ७ : ६.
 उ(द् >)त् √ कुद् (शब्दे) > उत्-क्रोद्^b - दम् आपश्री २१, १९, २.
 उ(द् >)त् √ कुश् > उत्-क्रोश^c - (> उक्क्रोशीय- पा.) पाग ४, २, ९०.
 उत्-क्रोशत् - शन्तम् विध ५, ७४.
 उ(द् >)त् √ क्षिप्, उक्षिपति वीश्री २, ८, ३८; उक्षिपन्ति वीपि ३, ४, १७; उद्...अक्षिपन् वृदे ६, ८८; उक्षिपेत् आमिगृ २, ५, ११ : २१.
 उत्-क्षिप्य वैगृ ७, २ : १२; याशि १, १४.
 उत्-क्षेपण- णौ आमिगृ २, ६, ५ : २७; वीगृ २, ९, २५.
 उत्क्षेपण-वत् काश्री ५, १०, १८.
 उत्क्षिपा-उत्क्षेप^d - (> औक्षिप- , औक्षेप- पा.) पाग ४, १, ११२.
 उ(द् >)त् √ क्षिद्, उक्ष्वेदेत् माश्री २, २, २, २०.
 उ(द् >)त् √ खन् > उखनति माश्री २, ५, ४, २१; आमिगृ २, ६, १ : २४; कौसू ३६, १८; ४४, ९;

उखनामि कौसू ३६, १८^f.
 उत्-खानम् लाश्री ८, २, ५.
 उत्-खाय वैगृ ६३ : १.
 उ(द् >)त् √ खिद्, उखिदति आपश्री १३, १९, ५; वीश्री; उखिदन्ति वीश्री ५, १६ : २१; ऋउखिदामि आपश्री १२, १६, ५; हिश्री ८, ४, ३६; ऋउखिदतात् आश्री ३, ३, १; शांश्री ५, १७, ४; उखिदेत् वीश्री २१, ५ : २८; ८ : १८; २०; २४.
 उत्-खिदत् - दन् वीश्री ११, ५ : २.
 उत्-खिद्य काश्री ६, ६, ११ × ×; आपश्री.
 उत्-खिद्यत् - द्यन्तः हिपि ५ : ५.
 उत्-खेदन- -ने वीश्री २१, ५ : २७.
 उ(द् >) त्-तट^e - > ष्ट-प्राकार-गोपुर-गृहाम्रा(प्र-अ)धिरोहण-पांसुस्नान^f - नम् अप ६५, २, ४.
 उ(द् >)त् √ तन् > उत्-तान, ना^g - नः आपश्री १०, १५, ९ × ×; वीश्री; -नम्^h आश्री १, ११, ८; शांश्री; -नयोः या ४, २१ⁱ; -ना वैश्री १, १ : २८; मागृ २, १८, ४^j; -नाः आश्री २, ३, २१; आपश्री; -नान् आश्री ४, ५, ७; आपश्री; -नानि आपश्री १, ११, १०; १९, ३; वीश्री; -नाभ्याम् आगृ १, ३, ३; -नाम् काश्री ७, ३, २५ × ×; भाश्री; -ननाय आपश्री

१४, ११, ३; माश्री ५, २, १४, १२; हिश्री १०, ६, ९; -नायाः काश्री ६, ९, १५; वीश्री; -ननायाम् शुभ्र ४, ८^k; अप्रा ३, ४, १; -ननायै शांश्री १२, २२, १; आपश्री; -ने हिश्री १, ७, ३; -नेन शांश्री ४, ९, ५; काश्री; -नेपु आपश्री १९, २१, २२ × ×; वीश्री; -नौ भाश्री २, १२, ११; माश्री.
 उत्तान-खट्वा(ट्वा-आ)सन-पा-दु(क >)का^l - का शंघ ७९.
 उत्तान-प(र्ण >)र्णा^m - णाम् बुदे ८, ५६; -०र्णे आपमं १, १५, २ⁿ.
 उत्तान-पात्र-कृत् - कृत् कप्र १, ४, ९.
 उत्तान-पाद^o - दम् शंघ ११६ : ४२.
 उत्तान-भाग- -गयोः वैश्री १०, २१ : १८.
 उत्तान-शय- पावा ३, २, १५.
 उत्तान-हस्त^p - स्ताः काश्री ८, २, ८; वैताश्री १३, २४.
 उत्तानी^q / कृ > उत्तानी-कृत्य वैश्री ३, ६ : १०.
 ? उत्त-तान^r - नः या ४, २१.
 उ(द् >)त् √ तप्^m, उत्तपेरन् दाश्री ७, ३, १५; लाश्री ३, ३, १७.
 उत्-त्पन- -नेन आमिगृ ३, १०, १ : १३; हिपि १२ : ८.
 उत्तपना(न-अ)र्थ^s - र्थः भागृ १, २६ : २.

a) भाप., नाप. (क्रु-विशेष-). b) वैप १ द. । c) = कुरर- [पक्षि-विशेष-] । उप. कर्तरि अच् प्र. । d) अर्थः व्यु. च ? । e) नाप. । बस. । f) द्रस. > सस. > समाहारे द्रस. । 'हाग' इति पाठः ? यनि. शोधः । g) पाभे. वैप १, ८८१ h द. । h) 'याः इति पाठः ? यनि. शोधः (तु. मा ३७, १४) । i) विप. । बस. > द्रस. । j) विप. । बस. । k) = राजर्षि-विशेष- । व्यु. ? । l) पाठः ? उत्तर-तान- (उत्तरम् [ऊर्ध्वं] यथा स्यात्तथा तन्त्यते इति [तु. तत्रैव ऊर्ध्व-तान-]) > -नः इति शोधः । m) पा १, ३, २७ परामृष्टः द. ।

उत्तपनीय- -यः आमिष्ट २,
१,३ : १०; हिष्ट २,३,५; -यम्
बौश्रौ २, ७ : १०; १३ : ३;
१८, ८ : १०; १६ : ६; ४० :
१८; वैश्रौ १, ५ : ४; बौपि २,
४, ११; वैष्ट ३, १५ : २; गौपि
१,१,२६; -ये बौश्रौ २४, ८ :
७; -येन आमिष्ट ३, ७, ४ :
२५; बौपि ३, १, १२; ५, २;
गौपि १,१, २१; -यैः बौपि १,
२ : २०.

उत्त-तापन- -नम् सुध ३०; सुधप
८७ : १३.

†उत्त(द्व/स्त)म्, इम्, उत्तम्नोति
भाश्रौ १०,२०, १२९; उद्...
तम्नोमि^b आमिष्ट ३,८,२ : २९;
बौपि १,१५ : ३७; हिपि १५ :
१४.
उद्...स्तम्नामि^b शाश्रौ ४,
१५,८; आष्ट ४,५,१०; कौष्ट ५,
६,२; कौस् ८६, ८; अत्र १८,
३; उत्तम्नात् आपश्रौ १०,
२८, १××; भाश्रौ; उत्तमान
माश्रौ १, ८, २, १७; वाश्रौ;
†उद्...स्तमान^c आपश्रौ ७,
१०,७××; बौश्रौ; उद् (स्तमान)
काश्रौ ८, ५, २९^c; उद्...
अस्तम्नात् शाश्रौ ८, २५, १;
उद् (अस्तम्नात्) आश्रौ ६,
२,११.
उदस्ताम्सीत्^d आपश्रौ १४,
३१,३.
उत्तम्भयतः वैश्रौ १४,६ : ३९.

†उत्-तमि(त>)ता- -ता आपमं
१,६,१^e; कौस् ७५, ६; -ताः
अप्रा ३,४,१.

†उत्-तम्नुवत्- -वन् आमिष्ट ३,
८,२:५७; बौपि १,१५ : ६२.

उत्-तम्भन^e- -नम् काश्रौ ७,९,
२२; शुप्रा ५,३८; ६,२९; -नेन
काश्रौ ७,९,२२.

उत्तम्भनी- -नी आपष्ट ५,
१९.

उत्तम्भना(न-आ) दि- -दीनि
शुप्रा ५,३८^f.

उत्त(द्व-त)म,मा^g,^f- पाग ४,२, ७५;
१३८^h; ६,१,१६०; पावा ३,१,
७; -मः आश्रौ २, २०, ३××;
शाश्रौ; वाश्रौ ३,२, ८, १४ⁱ;
पा १, ४, १०६; १०७; ७,
१, ९१; पावा १, ४, १०८;
-मम् आश्रौ १, २, १६××;
शाश्रौ; वैश्रौ १६, १८ : ५^j;
बौपि १, १२ : २^j; -मम्-मम्
लाश्रौ ६,९, १६; -मया आश्रौ
४, ६, ३××; शाश्रौ; -मयोः
आश्रौ १२,१,५;काश्रौ; -†मस्य
आश्रौ २, १०, २२××; शाश्रौ;
-मस्याम् आश्रौ १, २, २१;
-मा आश्रौ २, १०, २२××;
शाश्रौ; -माः आश्रौ ४,१३,७;
१५,२; शाश्रौ; -मात् आश्रौ २,
१५,१०××; शाश्रौ; -मान् आश्रौ
६, ३, ७××; शाश्रौ; -मानाम्
शाश्रौ १३, १०, १०; १९,
१३; लाश्रौ ७, ३, १२; -मानि

आश्रौ ६,४,५; शाश्रौ; -माभिः
शाश्रौ १४, ५२, १४; ५५, ५;
माश्रौ ६,१,१,२६; -माभ्याम्
काश्रौ ४, ४, १४××; आपश्रौ;
-माम् आश्रौ २, १६, ८××;
शाश्रौ; वैताश्रौ २१, ३; ३२,
२५^k; -माय शाश्रौ १८, २४, ६;
माश्रौ; -मायाः आश्रौ ४, ६,
३××; शाश्रौ; -मायाम् शाश्रौ
१५, २२, १××; काश्रौ; -मायै
शाश्रौ १८, २०, ३; ४; -मासु काश्रौ
१५, ८, ७; दाश्रौ १, ४, २१;
लाश्रौ १, ४, १६; ६, ८, १२;
कौस् ५८, २५; -मे आश्रौ १,
७, १××; शाश्रौ; आपश्रौ ७,
५, १^l; माश्रौ ६, २, ३, ८^l;
या ५, ३; ६, १७; ७, ११;
पावा ३, १, ३६; ७, ३, ८५;
-मेन आश्रौ १, २, २७××;
शाश्रौ; -†मेभ्यः अप ४६, ९,
१२; अत्र १९, २२; -मेषु
शाश्रौ ७, २६, १४××; अप; -मैः
माशि ११, २; -मौ आश्रौ ११,
४, २; शाश्रौ.

उत्तमी^m- -मीः आपश्रौ २२,
२०, १४.

औत्तम- पा ४, २, ७५.

औत्तमिकⁿ- -कानि या ७, २३.

उत्तम- -मात् पावा ३, १, ७.

उत्तम-ज- -जम् आपश्रौ २०, २३,
१; हिश्रौ १४, ५, ११.

उत्तम-दन्त- -न्तौ कौस् ४६, ४३.

उत्तम-पञ्चक- -केन विध ७३, ७.

a) शौच २, १८ परामृष्टः द्र. । b) पाभे. वैप १, ८८४ d द्र. । c) पाभे. वैप १, ८८४ e द्र. ।

d) पाभे. वैप २, ३खं. उदस्ताम्सीत् तैत्रा ३, ७, १०, १ टि. द्र. । e) वैप १ द्र. । f) पा. प्रायः = उत्तम-पुरुष-
इति, प्रातिशाख्ये = वर्गस्थ-पञ्चमाक्षर- इति । g) अर्थः ? । h) पाठः ? उत्तमे इति शोधः । i) उत्तम् इति
पाठः ? यनि. शोधः (तु. संस्कर्तुः टि.) । j) पूर्वेषु संघिरार्थः । k) वैप १ परि. √^lभाअन्य टि. द्र. ।
l) पाभे. वैप १, ८८३ f द्र. । m) = अन्तिमा- । ऋिप् प्र. उत्सं. (पा ४, १, ४१) । n) तत्रभवीयष् ऋ द्र. ।

उत्तम-पर^a -रः तैप्रा ८, २; १४, २४; -रात् तैप्रा १४, ११; २१, १२.

उत्तम-पुरुष- -वाय गौध २६, १२१.

उत्तमपुरुष-यो(ग >)गा^a-

-गाः या ७, २.

उत्तम-प्रयाज- -जः हिश्रौ १३, १, २४.

उत्तम-रात्री- -त्री कौस् १३५, ९१.

उत्तम(म-ऋ)र्ण^b- -र्णः विध ६, १; ६; २०; २१; २६; पा १, ४, ३५; -र्णस्य विध ६, १०; -र्णौ कौस् ४६, ३६.

उत्तम-ल-भाव- -वात् तैप्रा ५, ३१.

उत्तम-वर्जम् कौस् ७१, १५.

उत्तम-वर्ण, णा^c- -र्णान् विध ५, १५१; ३६, ७; -र्णान् विध १५, ३.

उत्तमवर्ण-वर्ग-पतित- -ताः

वाध १५, ११.

उत्तमवर्णा(र्ण-आ)क्षेप- -पे शंध ३१२.

उत्तम-शा(खा >)ख- (>उत्त-मशाखीय- पा.) पाग ४, २, १३८.

उत्तम-स-वर्णा(र्ण-आ)क्षेप^c- -पे विध ५, ३७.

उत्तम-साहस^d- -सः विध ५, १२१; १५१; -सम् विध ५, २९; ४०; ४७; ५५; ८७; १७२; १७४.

उत्तम-स्थान- -नेन आश्रौ ४, १५, ११.

उत्तम-सुव- -वे हिश्रौ ७, १, ४३.

उत्तम-स्वर- -रेण आश्रौ ५, १७, १.

उत्तमा(म-अ)ङ्ग- -ङ्गम् वैगृ २, ६; १५.

उत्तमा(मा-आ) दि-श (स्त >)

स्ता- -स्तानाम् आश्रौ ७, ११, ३६.

उत्तमा(म-अ)न्त- -न्तम् उस् ७, १५; श्रुप्रा ७, ११.

उत्तमा(म-आ)पत्ति- -त्तिः माशि ९, ७; -त्तिम् नाशि २, ४, ४.

उत्तमा (म-अ) भिष्टव- -वौ निस् १०, ३; ५.

उत्तमा (म-अ) र्ध- -र्धे शाश्रौ १०, ६, १३; लाश्रौ ७, १२, ६; १०.

उत्तमाध्य- पा ४, ३, ५.

उत्तमा-वर्जम् आश्रौ ७, ११, ९; ३३.

उत्तमा-संयोग- -गात् काश्रौ १८, ४, १३.

उत्तमीय- पा ४, २, १३८.

उत्तमै(म-ए)क- -कम् वेज्यो २७; -काभ्याम् पा ५, ४, ९०°.

उत्तमै(म-ए)कादेश-प्रतिषेध- -धः पावा १, २, ४.

?उत्तमोत्तमाः मैअ २६; ?उत्तमो-त्तमौ मैअ २५.

उत्तमो (म-उ) त्तीय^e- -यस्य तैप्रा ८, २०.

१उत्त(द-त्)र, रा^f- पाग १, १, २७; ४, २, १३८; -रः आश्रौ २, १९, १७; ६, ४, १०^h××; शाश्रौ १७,

१३, ३^g; १८, १३, २^h; वौश्रौ २२, ८:३ⁱ; आपमं १, ३, १^h; पागृ १, ४, १६^h; आमिगृ १, ५, ३:१४^h; कागृ २५, २२^h; वौगृ १, ४, ७^h; वागृ १४, १०^h; हिगृ १, २०, २^h; जैगृ १, २१ : ६^h; कौस् ६, १०^h; या १, १४; २, ११^h; ४, २७; ५, ३; ६, १^h; ११^h, ३८; ३९; ११^h, ९; २८; ११^h, ३; ४; -रःऽ-रः काश्रौ ९, १३, ४××; आश्रौ; -रम् आश्रौ १, ७, २××; ११, ७, ९^h; शाश्रौ; -रम्ऽ-रम् आश्रौ २, २१, ४××; वौश्रौ; -रया आश्रौ १, १, २३××; शाश्रौ; -रयाऽ-रया काश्रौ १६, २, २३; आश्रौ; -रयोः आश्रौ २, १, १०××; शाश्रौ; पावा ३, १, २२; -रस्मात् आश्रौ ७, ४, १××; वौश्रौ; या २, ११^h; -रस्मिन् आश्रौ २, १६, १६; ११, ३, ८; शाश्रौ; आश्रौ ३, १९, ३^h; -रस्मै काश्रौ १५, ७, १२; आश्रौ; -रस्य आश्रौ १, ५, २९^h××; शाश्रौ; पा १, १, ६७; ८, २, १०७; पावा २, २, २४; ३, २, ८७; ५, १, १२१; ८, २, १; -रस्याः आश्रौ १, २, १०××; शाश्रौ; -रस्याम् आश्रौ १, ७, ७××; शाश्रौ; या १२, २२; -रस्यै वौश्रौ २२, ९ : ७; -राⁱ आश्रौ २, ४, ९××; शाश्रौ; या १, १९; २, ११; ३, २; ४; ४,

a) विप. । बस. । b) नाप. । ऋणे उत्तं इति ऋक्षी. बस. पूप. = वृद्धिगत- इति अभा. प्रभृ. । c) कस. > बस. > षस. । d) = दण्ड-विशेष- । बस. (तु. शक.) । e) द्रस. पूप. = पुरय- । f) = ऋषि-विशेष- । बस. । g) वैप १ द्र. । h) पाभे. वैप १, ८८४ h द्र. । i) उत्तरो बाहुः इत्यस्य स्थाने सपा. द्राश्रौ १०, ३, ६ लाश्रौ ३, ११, ३ उत्तरतः इति पाभे. । j) = उत्तरतस् (:) । k) पाभे. वैप १, ८८४ i द्र. । l) पाभे. वैप १, ८८२ g द्र. । m) तु. आन. । n) उरस्मिन् इति पाठः ? यनि. शोधः । o) क्वचित् आच् प्रत्ययान्तं तु. आजादेशश्च द्र. ।

२००; ५, ८; ७, १७; २७; ३१; १०, २६; ११, २९; ३१; ३३, ७; १४, ३२; पा ५, ३, ३८; -राः आश्री १, ६, ४××; शांश्री; -राणि आश्री ८, ६, १३××; शांश्री; आपश्री १०, ५, १००; बौश्री ६, २: ४०; भाश्री १०, ३, १५०; वैश्री १२, ६: ४०; हिश्री १०, १, ३२०; या २, १०; १३; १५; १८; २०; २१; २३; २४; २७; २८; ३, १; ७; ८; ९; ११; १३; १९; २०; २१; ४, २०; पावा १, ४, १; मीसू ११, ४, २०^b, -राणि-ऽराणि हिश्री २, २, १२; -रान्^० आश्री ८, ७, १५; काश्री; पा ५, ३, ३४; -रान्-काश्री ८, १××; २४, ७, ३२^d; आपश्री; माश्री २, १, १, २५०; -राभिः शांश्री १५, २२, १^e; आपश्री; या ९, ८; -राभिः-ऽराभिः शांश्री १६, १३, ११; -राभ्यः भाश्री ५, २, ३, १; आपमं; -राभ्याम् आश्री ६, १३, १०; काश्री; -ऋराम आश्री १, ९, ५××; ८, ३, १९^f; शांश्री; -राम्-ऽराम् आपश्री ५, ८, ८; बौश्री; -रायै आपश्री ८, ५, २०××; बौश्री; -रासाम् बौश्री २०, ४: २४; माश्री; -रासु आश्री ६, ३, १२; शांश्री; -रे आश्री १, ७, २××; शांश्री; भाश्री १, १९, ७^g; या २, २८; ३, ९^h; १०; ११; १३; १९ⁱ; ६, १८; ७,

१६; १८; २०; २३; ३१; -रेऽ-रे बौश्री २८, ४: १; -०रे आपमं १, १५, ३; -रेण^k आश्री ३, १, १८××; शांश्री; पावा १, १, ४४; ३, ५८; -रेणऽ-रेण आपश्री २, १०, ३××; बौश्री; -रेभ्यः भाश्री २, १६, ४; ७, ११, ९; २१, ९; अप ४६, ९, १३; अत्र १९, २२; -रेषाम् आश्री ११, ६, १; शांश्री; -रेषु आश्री १, ३, १९; काश्री; पा ८, १, ११; -रैः काश्री ९, ८, २०; आपश्री; -रैः-ऽरैः काश्री १५, ४, ३७; आपश्री १४, १९, २; भाश्री ११, ८, ५; -रोम्^h वैताश्री ३२, १७; -रौ काश्री ३, ५, ७××; आपश्री. औत्तरकीय- पा ४, २, १३८. औत्तराह- पावा ४, २, १०४. उत्तर-कपाल-योग- नो भाश्री १, २५, ११. उत्तर-कर्व्वं(र्षु-अं)श- शो कप्र २, ८, २१. उत्तर-कल्प- ल्यः निस् ९, १०: १०; -ल्पम् भाश्री ११, १६, ९. उत्तर-काण्ड- ण्डेन हिश्री १७, ४, ९. उत्तर-कारित- -तम् ऋप्रा ११, ४४. उत्तर-काल- -लेन बौश्री २४, ६: ८. उत्तरकालीन- पागम ४, २, ११६. उत्तर-कृत- -तम् उस् ३, ५. उत्तर-कृत्व(तु-अ)र्थ- -र्थः वैश्री

१८, १: ४; हिश्री ११, १, २. उत्तर-घृत- -तः गोगृ २, ७, ९; -तम् द्रागृ २, २, २७. उत्तर-च्छ(द>)दा- -दाम् जैश्रीका ४५. उत्तर-तन^k-> औत्तरतनिक- -केन वाश्री १, १, ३, ५. उत्तर-तन्त्र- -न्त्रम् अप १८, १, ८; १९, ५, २. उत्तर-तस(ः) पा ५, ३, २८; आश्री १, १२, ३५; २, ३, १०; १८; ८, १८, १२; शांश्री; लाश्री ३, ११, ३^m; द्राश्री १०, ३, ६^m; या ९, ५ⁿ. उत्तर-उप L, पाⁿचार- -रः शांश्री १, १, १२; आपश्री २४, २, १०; काश्री १, ८, २६; भाश्री १, १, १६; माश्री १, १, १, १; वाश्री १, १, १, १०; हिश्री १, १, ५२; वैताश्री १, ९; बौध १, ७, १. उत्तरतः-परिषेव (न>) ना- -नाम् भागृ २, १८: १४. उत्तरतः-मेविन्- -वी बौश्री २५, २१: ६. उत्तरतो-गण्डमान^० -नाः बौश्रीप्र ४१: १६. उत्तरतो-लोमन्- -न्ना शांश्री १७, ५, ९. उत्तर-त्र वैश्री १४, ५: ९; निस् ८, १: ६; ३: ३०; वैश्री २, ५: २१; पावा १, ४, १०८; २, १, ५८; ३, ३, १४५; ७, ३, ७१; ८, १, ७२; ३, १३.

a) पाभे. वैप १, ८८५ d द्र. । b) तु. प्रयासं. । c) क्वचिद् आति- प्रत्ययान्तं सद् वा. क्वि. । d) तु. चौसं.; वैतु. कासं. उत्तमान् इति ? । e) पाटौ? शोधार्थं वैप १ परि. ✓भाज्ञन्य टि. द्र. । f) सपा. आपश्री १, १७, ८ सध्वे इति पाभे. । g) वैप १ द्र. । l) = प्रतिगर- । h) कस. > षस. । j) विप. । बस. । k) तत्रमवीयष् ट्युः प्र. सुद् च उसं. (पा ४, ३, २३) । l) स्वार्थे ठक् प्र. उसं. (पा ५, ४, ३४) । m) पाभे. पृ ६३७ j द्र. । n) शांश्री. वैताश्री. पाठः इति । o) = ऋषि-विशेष- । व्यु. ? ।

उत्तर-दक्षिण- णयोः वैगृ १, १५ :
४; ३, ७ : ३.
उत्तर-दण्ड^a- ण्डेन वौश्रौ २२, १ :
१४.
उत्तर-द(शा >)श^b- -शम् आपश्रौ
१०, २४, ७; भाश्रौ १०, १६, ६;
-शानि वौगृ १, २, ३.
उत्तर-नाभि- -भिः वौश्रौ १८, २४ :
१३; २०, २५ : ३०; -भिसु
आपश्रौ ७, ५, १×४; वौश्रौ; -भौ
काश्रौ ५०; वैश्रौ १०, ६ :
२; -भ्याम् हिश्रौ ४, २, १६.
उत्तर-नारायण^b- -णः शुश्र ३,
१३८; -णेन आपश्रौ २०, २४,
१६; हिश्रौ १४, ६, १३; १७,
३, २४^c.
उत्तर-निर्वाध- -धम् वौश्रौ १०, १५ :
३; ३० : ३; वैश्रौ १८, १७ : ६.
उत्तर-पक्ष- -क्षम् काश्रौ १७, ३,
२३; २४, ४, २०; -क्षस्य काश्रौ
१६, ८, २३; १८, १, १.
औत्तरपक्षिक- -कः निसु ५,
३ : १०; १०, ६ : ७^d.
उत्तर-पथ-(> औत्तरपथिक-) पा
५, १, ७७.
उत्तर-पद- पाग ४, २, १३८; -दम्
अप्रा २, ३, ११; -दस्य ऋप्रा
७, ७; पावा १, २, ५१; २, २, ३६;
४, ८३; ३, २, १२४; ५, २, १२; ६,
१, ८४; २, १३९; ३, ५६; १०८;
७, ३, १०; ८, १, १२; १५; -दात्
अप्रा ३, ३, १९; पा ६, १, १६९;
-दे अप्रा ३, १, १२; ३, ११; १२;
शौच ४, ५०; पा ६, २, १४२;
३, १; पावा २, १, ५१; ३, २,
१२४; ६, ३, ३३; -देन पावा

२, १, ५१.
औत्तरपदीय- पा ४, २, १३८
उत्तरपद-ग्रहण- णम् पावा ८,
४, ३.
उत्तरपद-स्व- -स्वे पावा १, १,
६३.
उत्तरपद-प्रसिद्धि- -द्धिः पावा
२, १, ५१; ३, २, १२४.
उत्तरपद-भूत- -तानाम् पावा
७, २, १०७.
उत्तरपद-भूमन्- -न्नि पा ६,
२, १७५.
उत्तरपद-मात्र- -त्रस्य पावा ७,
३, ४७; -त्रे पावा ६, ३, ६०.
उत्तरपद-लोप- -पः पावा २,
१, ३५; ६९; २, २४; ४, २, ३;
५, २, १००; ३, ८२; -पे पावा
१, १, ५७; ४, १८; ७, ३, ४५.
उत्तरपदलोप-वचन- -नात्
पावा ५, ३, ८३.
उत्तरपद-वचन- -नात् पावा ६,
१, १३.
उत्तरपद-वृद्धि- -द्धिः पावा ६,
१, ८४; ७, ३, १०; -द्धौ पा ६,
२, १०५.
उत्तरपदा (द-अ) तिशय- -ये
पावा २, १, ६९.
उत्तरपदा(द-आ)दि- -दिः पा
६, २, १११; -देः पावा ६, ३,
१०९.
उत्तरपदादि-लोप- -पः पावा
६, १, ३७.
उत्तरपदा (द-आ) घ- -घस्य
अप्रा ३, ३, २०; शौच ३, २३.
उत्तरपदा(द-आ)द्युदात्ता (त्-अ)
र्थ- -र्थम् पावा ६, २, १७५.

उत्तरपदा(द-अ)धिकार- -रस्य
पावा ६, ३, १.
उत्तरपदा(द-अ)नन्तोदात्त-स्व-
-त्वस्य पावा ६, २, १४३.
उत्तरपदा(द-अ)नन्तोदात्त-स्व-
-स्वे पावा ६, २, १४३.
उत्तरपदा(द-अ)र्थ- -र्थे पावा ५,
३, ६७.
उत्तरपदार्थ-प्रधान^a- -नः
पावा ५, ३, ७२.
उत्तर-परिग्रहा(ह-आ)दि- -दि काश्रौ
६, २, ५; ८, ६, २३.
उत्तर-परिग्रह-प्रभृति- -ति वौश्रौ
१९, ५ : ९.
उत्तर-परिधि-संधि^d- -न्धिना वैश्रौ
८, ६ : २.
उत्तर-पश्चात् आमिगृ २, ५, ९ : ७;
जैगृ २, ६ : ७.
उत्तर-पश्चा(श्च-अ)र्ध- -र्धात् कौगृ
१, ५, १७; शागृ १, ९, ५.
उत्तर-पश्चिम- -मे आगृ ४, २, १२;
वैगृ १, १२ : १०.
उत्तरपश्चिम-ग्री (वा >) व^a-
-वम् वैगृ ४, ५ : १०.
उत्तर-पार्श्व- -र्धे अप ५६, १, ९.
उत्तरपार्श्व-तस् (:) वैश्रौ १, १२ :
२०.
उत्तर-पुरस्तात् आगृ १, ७, ३; १०,
१८; ४, ४, ८; जैगृ १, २१ : ७;
२६; २, ६ : ६.
उत्तर-पूर्व, वार्त्ता^a- -र्थम् काश्रौ ८, ५,
५; आपश्रौ; -र्वया हिश्रौ ७, ८,
६४; -र्वस्य आमिगृ २, १, १ :
१३; हिगृ २, २, ६; -र्वस्याम्
काश्रौ ५, ९, १५; माश्रौ; -र्वा
आपश्रौ ९, २०, ७; -र्वाम् जैगृ

a) विप. । बस. । b) वैप २, ३खं. द्र. । c) षा^० इति पाठः ? यनि. शोषः (तु. पूर्व स्थलम्, संस्कृतुः टि. च) । d) कस. > षस. ।

१,३ : १८^३; -वै काश्रौ २५,
१२,९; आपश्रौ.
उत्तरपूर्व-देश- -शे आपश्रु, १०^३;
१७,७; वीश्रु २,८,२५; ३,५,९;
हिपि १२:२; आपध २,३,२३^७.
उत्तरपूर्वा(र्व-अ)र्ध- -र्धम् काश्रौ
७,२,१४; २६, ६, ९; ७, ३८;
-वै काश्रौ ३, ३, २०; कौश्रु १,
५,१८; जैश्रु १, २३ : ११; कौस्
४,१; ५,१२; हिध २,१,५३^७.
उत्तर-प्रणिधि- -धौ वैश्रु १, १३ :
२; ३, १३ : १.
उत्तर-प्रवण- -णे वैश्रु १,८ : १.
उत्तर-फाल- -लम् कौस् २०,२१.
†उत्तर-बर्हिस्^८- -र्हिः वीश्रौ ४,८ :
१९; २१.
उत्तरबर्हिर-हिरण्यशकल-तिला-
(ल-अ)त्त-दधि-मधु-क्षीरा(र-
आ)ज्या(ज्य-आ)दि- -दीनि
वैश्रु ५,२ : ९.
उत्तर-भाग- -गे अप ५६, १, ८;
-गेन वैश्रौ १,१ : १६.
उत्तर-भूयस्त्व- -स्त्वात् पावा १,१,
४८.
†उत्तरम्^८ वैताश्रौ २९, १५; कौस्
४,९; ५९,७; अअ ६,५.
उत्तर-मन्त्र- -न्त्रस्य वाश्रौ १, १,
१,१७.
उत्तर-म(न्द्र>)न्द्रा^८- -न्द्रा नाशि
१, २, ११; -न्द्रायाम् काश्रौ
२०,२,७.
उत्तर-मानस^१- -जे विव ८५,३६.

उत्तर-मार्ग- (ग>) गा^८- -गाम्
अशा ३,३.
उत्तर-युग- -गम् वीश्रौ १८, २४ :
१३; -गेन वीश्रौ २०, २५ : ३०.
उत्तर-रेखा- -खा वाध ३,२६.
उत्तर(र-ऋ)र्क्ष^७- -र्क्षम् वीश्रौ
२०, ७:१४.
उत्तर-लक्ष (ण>) णा^१- -णामि:
काश्रौ १६,७,१३.
उत्तर-लक्षमन्^१- -क्षमाणम्^६ आपश्रौ
१६, २४, १३; वीश्रौ ९, १७ :
३५; १०, ३२ : ९; -क्षमानम्^६
वैश्रौ १८,१७ : ४१.
उत्तर-लोक- -कम् वीपि २, ६, ३.
उत्तर-लोम^१- -मम् माश्रौ १,२,२,७.
उत्तर-लोमन्^१- -म शाश्रौ ४,१६,
२; आपश्रौ; वीपि २, ६, ३^७;
-मनि जैश्रु १, २२ : ६; -मानि
काश्रौ १, १०,४; -ज्ञा आपश्रौ
१५, १५, १; २१, १८ : ३;
वीश्रौ; -ज्ञि आपश्रौ ५, ५, १;
१६, २१, २; हिश्रौ ११, ७, २;
लाश्रौ ९, २, २२.
उत्तर-वत्- -वत्सु आश्रौ ६, ११, १२.
१उत्तर-वयस- -यसि वाश्रौ १,
२,३,२८.
२उत्तर-वयस^१- -यसः माश्रौ १,
१,२,२८.
उत्तर-वर्ग^७- -र्गेण पाश्रु २,६,२२.
उत्तरवर्ग^७- -र्गे वीश्रौ २३,
३ : ११; -र्गेण वीश्रौ १२,
१२ : १६; १३, ३८ : ४.

उत्तर-वसन्त-ज्योतिष्टोम^७- -मस्य
वीश्रौ २८,१२ : १८.
उत्तर-वासस- -ससा आपश्रौ १४,
२९, १.
उत्तर-वेदि^८- -दिः आश्रौ ९, ७,
१४; शाश्रौ; -दिम् काश्रौ ५,
३, १८××; आपश्रौ १६, २१,
६; १७,२५,१; १९,११,७,काश्रौ;
हिश्रौ ११, १, ३^७; -देः आश्रौ
२, १७, ९××; काश्रौ; -दौ
शाश्रौ १७, १३, ६; काश्रौ १०,
८,६^३; माश्रौ ६,२,६,३०; -द्यः
हिपि १७ : १३; -द्याः आपश्रौ
७, ४, ५; वीश्रौ; -द्याम् आश्रौ
४, ११, २××; आपश्रौ; -द्यै
आपश्रौ ७,४,५,५,३; वीश्रौ.
भौत्तरवेदिक^१- -कः वीश्रौ
६, २२ : १५; २७, १० : २३;
अप्राय ६, १; मीस् ७, ३, २५;
-कम् वीश्रौ २५, २ : १४; वाश्रौ
३, २, ४, १०; -काः वीश्रौ २६,
२८ : १२; -कात् वीश्रौ ६,
२२ : १५, १९; २५ : ५; अप्राय
६, १; -कान् वीश्रौ १०, २७ :
३; १९, १ : २०; -कानि २३,
११ : १८; -के आपश्रौ ११,
६, १०; वीश्रौ २४, ३४ : ८; १५;
२७, १० : २४; वाश्रौ १, ६,
२, ५; वैश्रौ १४, ५ : १३; १५ :
१४; हिश्रौ ७, ५, १; ८, २८.
उत्तरवेदिक^८-> °का(क-आ)श्रौ
धीय- -यान् वैश्रौ २१, १० : ४.

a) वै दे० इति चौसं. । b) परस्परं पाभे. द्र. । c) वैप १ द्र. । d) पाभे. वैप १, ८८६ j द्र. ।
e) = मूर्च्छना-विशेष- । सस. । f) = तीर्थ-विशेष- । कस. । g) विप. । कस. > उस. । h) अर्थः ? । उप.
= विशसनप्रदेश- इति पदसूची । i) विप. । बस. । j) विप. (आषाढा-इष्टका-विशेष-) । बस. । k) पालिकं णत्वम्
(पा ८,४,११) । l) विप. । बस. समासान्तः अप् प्र. उत्सं. (पा ५, ४, ११७) । m) अक्षर-लोम इति ष. ।
n) = परिहितवक्रोत्तरभाग- । o) स्वार्थे यत् प्र. । p) कस. > सस. । q) अन्तर्वे० इति पाठः ? यनि. शोषः
(तु. सप्र. आपश्रौ) । r) विप. । तस्येदमित्याद्यर्थे ठक् प्र. । s) विप. । मनुष्यायः ठक् उत्सं. प्र. (पा ५, २, ११६) ।

उत्तरवेदि-खरो(र-उ)परव-धि-
ष्णिय- -यान् आपश्रौ ११,
१५,५.

उत्तरवेदि-देश- -शम् आपश्रौ
१९,१५,८; हिश्रौ २३, ३, २९;
-शस्य आपश्रौ १९, ११, ६;
वौश्रौ १९,१ : १५; हिश्रौ २३,
२,६; -ने काश्रौ २२, ३, ४४;
आपश्रौ १०,२०,१३; माश्रौ ६,
१,५,३०; हिश्रौ ७,१,७२.

उत्तरवेदि-नाभि- -भिम् काठश्रौ
३०.

उत्तरवेदि-न्याय^a- -येन आपश्रु
९, ९; हिश्रु ३,२८.

उत्तरवेदि-प्रतिपेय- -यः मीसू
७, ३, २०; -धात् मीसू ७, ३,
२३.

उत्तरवेदि-मोक्षणा(ण-आ)दि^b-
-दि काश्रौ १७,३,२७.

उत्तरवेदि-मध्ये- -ध्ये वैश्रौ
१०,४ : १४.

उत्तरवेदि-वत् आपश्रौ ७,४, २;
१६,२२,४; १७, १३, ६; वैश्रौ
१०, ३ : ७; १८, १७ : १३;
१९, ६ : ७०.

उत्तरवेदि-श्रोणि- -णौ काश्रौ
८,९,१६; माश्रौ २, २,५,३४^c;
-ण्याम् काश्रौ १२, ४, ११;
आपश्रौ ११, २१,३; ४; काठश्रौ
११०; वैश्रौ १०,१६ : २; १४,
१९ : ५; १५, २८ : ५; हिश्रौ
७,८, ६३; ६४; अप्राय ३, २^d;
-ण्योः काश्रौ ९,१०,६.

उत्तरवेदि-संभार- -रान् वाश्रौ
१,७,२,९; -रेषु वैश्रौ ८,१९:१.

उत्तरवेदि-स्थान- -ने वैश्रौ १८,
१४ : २०.

उत्तरवेद्य (दि-अ) करण- -णम्
काश्रौ २२,७,४.

उत्तरवेद्यं (दि-अं) स- -सम्
वैश्रौ १०, ३ : ७; -से आपश्रौ
१३,१९,४^e.

उत्तरवेद्य (दि-अ) मि-निधान^d-
-नात् काश्रौ ५,४,६; १६,१,४.

उत्तरवेद्य (दि-अ) मिप्रणयन-
मन्थन-पृषदाज्य^e- -ज्यम् काश्रौ
५,७,७.

उत्तरवेद्य (दि-अ) न्त- -न्तात्
वाश्रौ १,६,१, १९; -न्ते माश्रौ
२,१,३,५०; २,४,३१; ३,१,९.

उत्तरवेद्य (दि-अ) र्थ- -र्थान्
आपश्रौ ७,४,२.

उत्तरवेद्या(दि-आ)वपन-काल^d-
-ले वैश्रौ १९,१०:४.

उत्तरवेद्या(दि-आ)वृत्- -वृता
वैश्रौ १४,४ : १५.

उत्तर-शान्ति- -न्तिः शाश्रु ६,
२, ७.

उत्तर-श्रोणि- -णेः वैश्रौ ८,९:९.

उत्तर-संहित- -तस्य शुप्रा ४,१९०.

उत्तर-सक्य- पा ५,४,९८.

उत्तर-उत्स्वन्^f- -त्वानः शाश्रौ ४,
१०,३^g.

†उत्तर-सद्^h- -सदः वैश्रौ १२,
४ : ६; भागु २,६ : ८.

उत्तर-संपात^h- -तान् कौसू ५३,
१४.

उत्तर-सिचⁱ- -सिचम् कौसू ८८,
२७; -सिचा कौसू ५८,१७.

उत्तर-सूक्त- -क्तेन बृदे ३,१४८.

उत्तर-स्वर-विधि- -धिः पावा १,
२,६४.

उत्तरां(र-अं)ल- -सम् काश्रौ १७,
२, ९; -सात् काश्रौ ८, ३,१४;
१७, १०, १८; -से काश्रु १,
३०.

न्तरा(र-अ) म्र, प्रा^h- -म्रम् अप
२२,७,५; वैश्रु १,१० : ९; १३;
११ : १; ४,१ : ९; -ग्राम् कप्र
१,८,२; -म्रेषु वैध ३,१०,४.

उत्तरा(र-आ)घार- -रम् काश्रौ ३,
२,१; ६,४,२.

उत्तराⁱ-त्व- -त्वम् मीसू ९, २,
२३.

उत्तरा(र-आ)दान- -नम् आश्रौ १,
२, १२.

१ उत्तरा(र-आ)दि- -दिः द्राश्रौ,
लाश्रौ १,१,३.

२ उत्तरा(रा-आ)दिⁱ- -दिभिः कप्र
३, ८,२१; -दिषु पाश्रु १, ४,
६^k.

उत्तरा(र-अ)घर- पाग ५, १,
१२४; -रेषु हिश्रु २, ३, २;
-रौ आपश्रौ १८, ११, १९;
वाश्रौ ३, ३, १,५४; हिश्रौ १३,
४,२६.

औत्तराधर्थ- पा ५,१,१२४.

उत्तरा(र-अ)ध्याय- -यम् निसू ८,
१ : १४.

१ उत्तरा(र-अ)न्त- -न्तेन माश्रौ
२, १,२,१७.

२ उत्तरा(र-अ)न्त^h- -न्तम् वैश्रु
१, ६ : ६; १० : ६; ११ : १;
५; १४ : ६; ३, ७ : १८; ४,
१ : ४; -न्ताः वैश्रौ १, ८ :

a) षस. उप. = प्रकार-। b) षस. > बस.। c) उत्तरे, वेद्यंसे इति C.। d) सस. > षस.।

e) समाहारे द्वस.। f) वैप २, ३खं. द्र.। g) वैप १ द्र.। h) विप.। बस.। i) = उत्तराग्रन्थ-
(उत्तरार्थिक- [तु. भाष्यम्])। j) बस. पूष. = उत्तरार्थिक-। k) पूष. = नक्षत्र-।

१४; वैगृ ६, १४ : ७.
 उत्तरा(र-अ)पर, रा^a - रम् काश्रौ ८,
 ५, ३; आपश्रौ ११, १२, ३;
 भाश्रौ १, २४, २; हिश्रौ १, ५,
 ६४; ६, ४; १२; ४, ४, १५; १३,
 ३, ३४; आम्रिगृ २, ७, ९ : १५;
 भागृ ३, १८ : १९; -रस्याः
 काश्रौ १७, ३, १२; -रस्याम्
 काश्रौ ५, ९, १३; आपश्रौ १७,
 ११, ३; वाश्रौ २, २, ३, ३; पागृ
 २, ९, १०; -रे काश्रौ ७, १, २०;
 -रेण भाश्रौ १, ७, ८.
 उत्तरापर-तसः (:) अप ५२, ९, १.
 उत्तरापर-शिरस- -राः विध
 ७०, २^b.
 उत्तरापरा(र-अ)भिमुख^c - -खः
 आगृ ३, ७, ४; कौगृ २, ६, ३^d;
 शागृ २, ९, १.
 उत्तरा(र-अ)पवर्ग^e - -र्गम् आपश्रौ
 ११, ११, ३; १९, २२, १०;
 आम्रिगृ १, ७, ३ : ३६.
 उत्तरा(र-अ)भिमुख^c - -खः कुध
 ५७.
 †उत्तराम्^f आपश्रौ १७, १४, ५;
 वौश्रौ १०, ५१ : १७; वैश्रौ १९,
 ६ : ७८; हिश्रौ १२, ५, १.
 उत्तरा(र-अ)म्बर-ता- -ताम्
 जैश्रौका ११.
 उत्तरा(र-अ)यण- -णम् वैगृ ५, १ :
 १०; विध २०, १; -णे आम्रिगृ २,
 ७, १० : ३; वैगृ ३, २३ : १; अप
 ३७, १२, १; शंघ १५८.
 उत्तरायण-पशु^g - -शोः वौश्रौ
 २८, १२ : १७^h.

उत्तरा(र-आ)य(त>)ताⁱ - -ता
 नाशि १, २, १२.
 उत्तरा(र-अ)रणि- -णिः कप्र १, ७,
 २; १४; अप २२, २, २; ३, ४;
 -णिम् शाश्रौ १६, १६, १;
 आपश्रौ ७, १२, १३; वौश्रौ २,
 ६ : ३२; १६ : ३२; २०, २७ :
 ११; २७, ७ : ४; भाश्रौ ७, ९,
 १३; माश्रौ १, ५, ३, १; ७, १,
 ४०; वाश्रौ १, ६, ४, ९; वैश्रौ १,
 १० : ९; ८, ५ : १३; हिश्रौ ४,
 ३, ९; वैताश्रौ ३८, १४; कौस्
 ६९, २१; -णेः वैश्रौ १, १ :
 २६; -ण्याम् शाश्रौ ३, १९,
 १४^j.
 उत्तरारणि-निप्यञ- -ञः कप्र १,
 ७, १३.
 उत्तरा(र-अ)र्थ, र्था- -र्थः मौस् ८,
 ४, १४; -र्थम् पावा १, १, ३; २३;
 ६१; ३, २, ५६; ६, ४, १०६; ७, १,
 ७३; ४, ७५; ८, १, ६८; -र्था
 द्राश्रौ १, ४, १३; लाश्रौ १, ४, ९.
 उत्तरा(र-अ)र्ध^k - -र्धम् वौश्रौ ७,
 १० : १८ x x; माश्रौ; -र्धस्य
 वाश्रौ ३, २, ५, ५७; वैताश्रौ २९,
 १४; -र्धाः अप १, ७, ७; -र्धात्
 शाश्रौ ४, २१, ११; काश्रौ;
 -र्धानि शागृ ६, १, ११; -र्धे शाश्रौ
 ४, २१, ११; १७, ४, ४; काश्रौ;
 -र्धेभ्यः वैश्रौ ९, २ : १५; ११ :
 ३; हिश्रौ २, २, ४५.
 उत्तरार्ध-परिधि-सन्धि^l -
 -न्धिम् आम्रिगृ १, ६, २ : १२.
 उत्तरार्ध-पूर्वार्ध^k - -र्धयोः वौश्रौ

५, ८ : ३२; -र्धात् गोगृ १, ८,
 १०; -र्धे शाश्रौ १३, १२, ९;
 आपश्रौ.
 उत्तरार्ध्य, धर्था^m - -र्ध्यः आपश्रौ
 १, ५, १०; वौश्रौ १७, १४ : १६;
 भाश्रौ १, ५, ८; वाश्रौ १, २, १,
 ३१; हिश्रौ १, २, ६२; -र्ध्यम्
 वौश्रौ १, १५ : ११; १९ : ४;
 १७, १३ : २ⁿ; ६; २६, २३ :
 १५; १६; भाश्रौ ३, ६, १६;
 वाश्रौ १, ३, ३, १४; ६, २०;
 हिश्रौ १, ८, ७; २, ४, १०; ४,
 २, १४; ९, ८, २१; -र्ध्यस्य
 आपश्रौ ३, ७, १३; -र्ध्या वौश्रौ
 ११, ४ : १३; १८, ४५ : २४;
 -र्ध्याः वौश्रौ १५, २८ : २०;
 -र्ध्यात् वौश्रौ २६, २४ : १५;
 -र्ध्यान् वाश्रुश्रौ ३, ८६ : १०;
 -र्ध्यानि वौश्रौ २५, १२ : ३;
 ४; -र्ध्याम् वौश्रौ १२, २० :
 २३; १८, ५० : ४; -र्ध्यायाम्
 हिश्रौ १२, ३, ४; -र्ध्ये वौश्रौ
 १५, १७ : १८.
 उत्तरा-वत् मौस् ११, १, ११.
 उत्तरा-व(त>)ती^m - -तीम् भाशि
 १०७.
 उत्तरा(र-आ)श्रम- > 'मिन्-
 कप्र १, ६, १५.
 उत्तरा-श्रोणि- -णेः काश्रौ १७,
 ९, १६.
 उत्तरा(र-अ)श्व- -श्वम् वैश्रौ १७,
 ११ : ५.
 उत्तरा(रा-आ)षा(ढ>)ठाⁿ - -ठा
 अप १, १, २; १४, १; -ठाः

a) विप. । बस. । b) श्रावाक्शि इति जीसं. । c) द्वितीया-समासः । d) पपरम् अभि इति पाभे.
 e) बस. वा. क्रिवि. । f) पाभे. वैप १, ८८६ j द्र. । g) सस. । h) ण्या इति पाठः ? यनि. शोघः (तु.
 आनर्तीयः) । i) कस., षस [आम्रिगृ १, ६, ३ : ९ प्रमृ.] । j) सस. > षस. । k) द्रस., षस. । l) विप. ।
 तत्रभवीयः यत् प्र. । m) वैप २, ३खं. द्र. । n) = नक्षत्र-विशेष- ।

अप १,८,१.
 उत्तराषाढ-संज्ञक^१- -कम् अशां
 ४,४.
 उत्तरा(र-आ)सङ्ग^२- -ङ्गम् भाग २,
 १८ : ४; वागृ ५, ३९; गोगृ १,
 ६, २१; द्रागृ १, १, २६.
 उत्तराहि पा ५, ३, ३८.
 उत्तरा(र-आ)हुनि- -तौ वैश्रौ २०,
 ५ : १०.
 उत्तरि(न् >)णी- -ण्या वैताश्रौ
 २०, २१.^३
 उत्तरीय^४- पा ४, २, १३८; -यम्
 पागृ १, ४, १३; २, ५, १७; ६,
 २१; आमिगृ १, १, २ : ३९;
 वैगृ २, ५ : १४; १३ : ७; १४ :
 ४; हिगृ १, ४, ६; ९, १०; १०,
 ५; वाघ ११, ६१; बौध १, ३,
 ६; वैध २, २, २; ७, ७; -याणि
 शंघ ३५; -येण पागृ १, १६,
 २४; -यैः काश्रौ २१, ३, ७.
 उत्तरीय-ता- -ताम् गोगृ १,
 २, २१.
 उत्तरीय-वत्- -वान् बौध १,
 ३, २.
 उत्तरे-द्युस(ः) आपश्रौ १६, ११, ७;
 बौश्रौ १०, १६ : १९; वैश्रौ १८,
 ९ : ९; हिश्रौ ११, ४, ९; वाश्रौ
 २, १, ३, २०; पा, पावा ५, ३, २२.
 उत्तरे(रा-इ)ला- -लाम् शाश्रौ १,
 १०, ४; १२, ५.
 उत्तरो(र-उ)त्तरा- -रः वैश्रौ १३,
 १ : १२; कप्र १, ४, १; बौध
 १, ११, ११; हिध २, ५, १३५;
 बौशु ५ : २; -रम् आश्रौ ३,

१४, १५; ४, १, २३; गौध १०,
 ६५; २७, १२; -रस्मिन् आपध
 २, १२, २२; हिध २, ४, ५९;
 -राः माश्रौ ५, २, ८, ३१; द्राश्रौ
 ५, २, १५; लाश्रौ २, ६, ८;
 -राणि हिश्रौ १४, २, २७; -रान्
 कप्र २, ४, १-५; -राभिः आपश्रौ
 १२, ३, ८१; -राम् आश्रौ ६,
 ७, ७; -रे हिश्रौ १६, २, ११;
 -रैः आपश्रौ १२, २१, १०;
 वाश्रौ ३, ३, २, ९.
 उत्तरोत्तर-काण्ड- -ण्डेषु अश्र
 २, १.
 उत्तरोत्तर-दान- -नेन कप्र १,
 ४, १.
 उत्तरोत्तर-वर्मन्^५- -र्मानः
 शाश्रौ ४, १०, ३१.
 उत्तरोत्तर-श्रयण^६- -णः हिश्रौ
 २३, ४, २०.
 उत्तरोत्तरा-वत्- -वत् शाश्रौ
 १४, १२, ११.
 उत्तरोत्तरिन्- -रिणः शाश्रौ १६,
 ३०, १२; ऋप्रा १६, २४.
 उत्तरोत्तरिणी- -णीम्
 शाश्रौ १६, ३०, १३; -ण्या
 शाश्रौ ९, २०, २.
 उत्तरोत्तरि-ता- -तायै शाश्रौ
 १४, १२, १०.
 उत्तरो(र-उ)त्तरि^७- -रि द्राश्रौ ४,
 १, १९; १०, २, १३; ११, १,
 ४; ३, २१; लाश्रौ २, २, ६; ३,
 १०, १२; ४, १, ४; ३, २०.
 उत्तरो(र-उ)न्नत- -तः अप ५०,
 २, १; ४, ५; ५, १.

उत्तरो(रौ)(र-ओ)ळ^८- -ळे शाश्रौ
 १, १०, २; बौश्रौ ३, २८ : २२.
 २उत्तर^९-> उत्तर-शलङ्कट- पाग २,
 ४, ६८.
 उत्तरण- उत्√तृ द्र.
 उत्तराश्मन्^{१०}- (> -श्म-क^१- पा.
 पाग ४, २, ८०.
 उत्तरिष्यत्- उत्√तृ द्र.
 उत्तान- उत्√तृ द्र.
 उत्तापन- उत्√तृ द्र.
 उत्तार- प्रम्. उत्√तृ द्र.
 उत्तिष्ठत्- उत्था द्र.
 उत्तीर्ण- ^{११}तीर्थ उत्√तृ द्र.
 उ(द् >)त्√तृ द्र, उत्तुदन्ति बौश्रौ
 १७, ४६ : ३; ऋत्तुद आपश्रौ
 १५, १९, ९; बौश्रौ ९, १८ : २४;
 २५; भाश्रौ ११, २१, ५.
 ऋत्तुद^{१२}- -दः कौसू ३५, २२;
 अश्र ३, २५.
 उ(द् >)त्-तुष^{१३}- -षान् बौश्रौ १,
 ६ : २१; वैश्रौ ४, ७ : ४.
 ऋत्तुद(द् >)त्√तृ, उत्तर आमिगृ ३,
 ८, २ : ४७; बौपि १, १५ : ५४;
 उत्तरम् आमिगृ ३, ६, १ : २५;
 कागृ २६, १२; ४५, १२; बौपि
 १, ९ : २; कौसू १३५, ९;
 अप्राय २, ६.
 उत्तरामि कागृ २७, ३; उत्तराणि
 आपश्रौ १६, १६, ४; हिश्रौ ११,
 ६, १४; उद्...अतिरत् शाश्रौ ८,
 २५, १; उद्(अतिरत्)आश्रौ ६,
 २, ११; उद्...अतिरम् आपश्रौ
 १६, १०, ७; बौश्रौ १०, १४ : ६;
 माश्रौ ६, १, ३, ३०; वैश्रौ १८,

a) विप. । बस. । b) = उत्तरीय- । उस. उप. ऋा/सम्ज् + कर्मणि घञ् प्र. । c) विप. >
 नाप. । d) बस. समासान्तः इच् प्र. उसं. (पा ५, ४, १२८) । वा. क्तिन्. । e) पावा ६, १, ९४ । f) = ऋषि-
 विशेष- । व्यु. ? । g) बहु. < औत्तरायणि- शालङ्कटि- । उरस-लङ्कट- इति पाका. । h) अर्थः व्यु. च ? ।
 i) = देश-विशेष- ? । j) वैप १ द्र. ।

७:२३; हिश्रौ ११,३,२२; उद्
(अतिरम्) वाश्रौ २,१, २,२९.
उत्-तरण- -णात् अप ६८,२,३१.
उत्तरण-छ्व- -वा: अप ६४,
९, ६.
उत्-तरिव्यत्- -व्यन् पागृ ३,१५,
८; १०.
उत्-तार- -रेण वैगृ ५, २ : १६.
उत्-तारण^०- -ण: वृदे ३, १६†;
-णात् कागृउ ४६ : ११.
उत्-तार्य वैश्रौ १८, १५ : ९^०;
कागृउ ४६ : १४.
उत्-तितीर्षु- -र्षु: अप ३, ३, ४;
-र्षो: ऋअ २,३,३३.
†उत्-तिरत्- -रत् आश्रौ ८,९,७;
शाश्रौ १०,११,९.
उत्-तीर्ण- -र्णान् पागृ ३,१०,२२;
-र्णानाम विध ४५,१.
उत्-तीर्थ वैश्रौ १२,६ : १३; आगृ.
उत्था^d (उद् √स्था), † उत्तिष्ठते
आपश्रौ २१,२, १०; माशि १,
११; नाशि १, ५, ५; २, ४, ८;
उत्तिष्ठति शाश्रौ ५, १०, ९;
काश्रौ; उत्तिष्ठत: गोगृ २,२, १;
उत्तिष्ठन्ते हिश्रौ १६, १, ३२†;
उत्तिष्ठन्ति काश्रौ १७, २, ४;
आपश्रौ; †उत्तिष्ठतु शांगृ ६,५,४^३;
†उत्तिष्ठ आश्रौ १,३, ३०××;
शाश्रौ; माश्रौ ६, १, २, २०^०; उद्-
... तिष्ठ काश्रौ २,१, २१××;
आपश्रौ; उद् (तिष्ठ) आपश्रौ ९,
१८, २^३; बौश्रौ २८, ६ : १०^३;
वैश्रौ २०, ३५ : २; हिश्रौ १५,
८,४^३; †उत्तिष्ठतम् अश्र ११,९;

उत्तिष्ठत> ता आश्रौ ५,१३,४;
८, १२,७; †शाश्रौ; †कौस् ७१,
२४^३; ८६, २७^३; उत्(तिष्ठत) वृदे
८,७७; उत्तिष्ठतऽउत्तिष्ठत वैताश्रौ
१४, ३†; उत्तिष्ठानि शांगृ ६,५, ३;
†उद्... तिष्ठानि कौस् १३७,
३७; उदतिष्ठत् वाधूश्रौ ४,६४^३;
६; ८; अश्र १५, २†; उत्तिष्ठेत्
अप ६१, १, १७; †उत्तिष्ठेत्
आश्रौ १,३, २३; शाश्रौ; उत्तिष्ठेयु:
आश्रौ १२, ६, ३४; बौश्रौ.
उत्तस्थौ वाधूश्रौ ४, ७५ : ३;
†उदस्थात् आश्रौ ३, ११, २;
शाश्रौ; †उद् (अस्थान्) आश्रौ
८, ८, ६; ८; शाश्रौ १०, ६, १८;
८, १४; हिश्रौ १०, ३, २७; ऋअ
२, २, ३८; †उत्थात् आपमं १,
४, ९; आमिगृ; †उद् (अस्थु)
आश्रौ ४, १४, २; ऋअ २, ६,
६४; ९, ५३; साअ २, १०६४;
†उदस्थाम^६ आश्रौ १, ३, २३;
बौश्रौ ६, १५ : १७; आपमं २,
५, ११; †उद् (अस्थाम^६) आश्रौ
१, ३, २३^३; १०, ४; काश्रौ ७,
९, ३; आपश्रौ १०, २७, ९; बौश्रौ
६, १५ : १७^३; भाश्रौ १०, १९,
१; माश्रौ २, १, ४, १९; वैश्रौ
१२, १९ : १७; वैताश्रौ १३, १०;
आपमं २, ५, ११^३; पागृ ३, २,
१४^३; आमिगृ १, १, ४ : ९; भागृ
१, ९ : १४; १९ : ३; २, ४ : १५;
वैगृ ३, ३, ९; ११; हिगृ १, ७, १०;
२०, ५; २, १७, १०; कौस् २४,
३१; उदस्थाम हिगृ २, १७, ११^६.

उत्थापयति आपश्रौ १, १०, ६;
बौश्रौ; उत्थापयन्ति कौस् १४०,
७; अप १९, १, ७; उत्थापयामसि
कौस् ६, १७†; उत्थापयेत्
आश्रौ ३, ११, २; आपश्रौ;
उत्थापयेयु: बौगृ ४, १, ९.
(उद्) अतिष्ठिपम् शौच ४, ९६.
उत्तिष्ठसेन् आपश्रौ १४, २३,
३; ४.
उत्-तिष्ठत्- -ष्ठत: शाश्रौ ४, १६,
७; आपश्रौ १४, २३, ९; हिश्रौ
१५, ६, ६; क्षुस् १, ७ : ८;
वैताश्रौ १४, ३; कौगृ ५, ८, ६;
-ष्ठत्सु आश्रौ ४, ७, ४; -ष्ठन्
आश्रौ ७, २, ३××; शाश्रौ;
-ष्ठन्त: आश्रौ १२, ६, ३४;
आमिगृ २, ४, ७ : ७; -ष्ठन्तम्
जैश्रौ ११ : २३.
उत्तिष्ठन्ती- -न्त्याम् माश्रौ ५,
१, ९, ३६.
उत्-थान्- -तु: अप्रा ३, ४, १†.
उत्-थान- -नम् आश्रौ ६, १०,
२६××; शाश्रौ; आपश्रौ २१,
२, ९^३; -नस्य वैगृ ६, ४ : १२;
-नान् कौगृ १, १६, १९; शांगृ
१, २४, १२; पागृ १, १६, २३;
३, १०, ६; -नानाम् बौश्रौ १७,
२७ : १; -नानि आश्रौ १२,
६, २६; -ने वैश्रौ २१, ११ : १;
कौगृ ३, १, ३; याशि १, ५५; ७२;
मीस् ६, ५, ३६; -नेषु बौश्रौ
२२, २१ : १; २३, १३ : १;
माशि ११, ७.
उत्थान-काल- -ले शांगृ ६, ४,

a) समासः वा. च ?। b) विप., माप.। c) °त इति पाठः ? यनि. शोधः (तु. सप्र. आपश्रौ १६, १८, १-३)। d) शौच २, १८; ४, ६२ ऋत ४, ३, ७ पा ८, ३, ६४; ६५; ४, ६१ पावा ६, ४, १३० परामृष्टः द्र.। e) पाभे. वैप १, ८८८। द्र.। f) पाभे. वैप १, ८८९ b द्र.। g) पाभे. वैप १, ८८९ e द्र.। h) सपा. हिश्रौ १६ १, ३३ उदयनम् इति पाभे.।

११.
 उत्थान-विसर्जन- -ने मीस् ३,
 २, १०.
 उत्थान-होम- -मम् वैगृ ७,
 ४ : ९.
 उत्थाना(न-अ)भाव- -वात्
 आपघ २, २८, १; हिध २, ६, १.
 उत्थानो(न-उ)द्वाहुगमन- -ने
 जैश्रौका १६३.
 उत्-थापन- पाग ५, १, १११; -नः
 अप ३२, १, २५; -नम् काश्रौ
 २५, १, १३; कौस् १४०, ३.
 उत्थापनी^५- -नीभिः वैताश्रौ
 ३७, २३; कौस् ८२, ३१; ८३,
 २०; २३; ८४, १३.
 उत्थापन-गण- -गस्य अग्रभू ३.
 उत्थापनीय- पा ५, १, १११;
 -यम् हिश्रौ ५, ४, ८७^६.
 उत्-थापि(न>)नी^७- -न्यः शांश्रौ
 १६, १३, १३.
 उत्-थाप्य शांश्रौ ३, २०, २; काश्रौ.
 उत्-थाय आश्रौ १, ३, २४; ४, १०,
 ७; शांश्रौ; आपघ १, ५, १२;
 ३२, १५^८.
 उत्-थायिन्- -यिनः वैश्रौ २१,
 १० : ५.
 उत्-थास्यत्- -स्यन् कौस् ४१, ८.
 उत्-थित, ता- -तः शांश्रौ १५, १९,
 १^९; आपश्रौ; हिश्रौ ६, ३,
 १७^{१०}; नाशि १, ५, ६^१; -तम्
 जैश्रौका १२७; अप १३, ३, ९;
 शैशि २२६; -तस्य अप १,
 ३२, २; ४, १, १; -ताः अप ७०^३,
 ३०, २; -ताम् अप्राय २, ४;

-ताय शुप्रा ६, २९^१; -तायाम्
 बौश्रौ २३, १ : ४३; आपगृ १५,
 ८; -ते वाध २७, १८; वौध ४,
 ५, ३१; वैध १, २, २.
 उत्थित-काल^{११}- -लानि बौश्रौ
 २४, १२ : २; २५, ४ : २.
 उ(द्>)त्/पच् > उत्पच > च-
 निप(च>)चा^{१२} पाग २, १,
 ७२.
 उत्-पचिण्यु- पा ३, २, १३६.
 उ(द्>)त्/पद्, उत्पाटयति शांश्रौ
 १७, १, २; वैगृ ७, ४ : ३;
 उत्पाटयेत् काध २७१ : २;
 उत्-पाटन- -नम् अप ७०^३, ७, २२.
 उत्-पाठ्य शांश्रौ १७, १, ८; बौश्रौ
 २८, ७ : ८; आमिगृ ३, ५, ८ : ५.
 उ(द्>)त्/पत्(गती), उत्पतन्ति
 वाध १६, ३२; य ७, २४^{१३};
 याशि २, ६१; ऋत्पतसि आश्रौ
 ३, १४, १३; आपश्रौ; उत्पत
 (त्-निप [त >] ता पाग २,
 १, ७२;) उदपतत् वाधूश्रौ
 ४, ५० : १; या ७, १२^{१४};
 उत्पतेत् आश्रौ ३, १४, १३;
 उत्पतेत् माश्रौ ३, ५, ४; अप्राय
 ४, २; उत्-पतेत् आपश्रौ ९,
 १६, ११; १५, १८, १०; माश्रौ.
 उत्पपात् बौश्रौ १८, ४५ : ७;
 ४६ : १५; ऋत्पत् (पेतुः) कौस्
 ४८, ४०; अग्र ७, ९५; अपं २ :
 ७५.
 उत्-पतत्- -तताम् बौश्रु ८ : ७;
 -तन् कौस् ४६, ५४^{१५}.
 उत्-पतित- -तम् आपश्रौ १०, १३,

११; १५, २१, ९; बौश्रौ; -ते
 अप ७०, ७, २.
 उत्-पतिण्यु- पा ३, २, १३६.
 उत्-पतिष्यत्- -ष्यन् आश्रौ ६,
 ५, ४.
 उत्पत्य > उत्पत्य-पाक(ल>)ला^{१६}-
 पाग २, १, ७२.
 उत्पत- (> बौत्पतिक-) उत्-पुत-
 टि. द्र.
 उ(द्>)त्/पद्, उत्पद्यते निस् २,
 १३:७; आमिगृ; उत्पद्यन्ते अप
 ६१, १, २०; ६८, १, २७; उत्पद्येत
 जैगृ १, १२ : ५७; वाध १५, ९.
 उत्पाद्यति शंघ २८८; विध
 ३०, ४६; उत्पाद्य सु २, ५;
 उत्पाद्येत् शांश्रौ ३, १९, १७××;
 बौश्रौ; उत्पाद्येयुः वैध ३, १५,
 १४.
 उत्-पत्ति- -त्तिः अप ५०, ९, ३;
 शंघ २११; तैप्रा २३, २; पा ४,
 १, ९३; ५, २, ५२; मीस् ३, ६,
 ६; ४, १, ४२; ७, ३, ३१; ११,
 ३, ३८; -त्तिम् विध ५, ५९;
 वैध ३, ११, १; -त्तिषु मीस् ७,
 २, ९; -त्तिनाम् मीस् ७, ४, ८;
 -त्तिः मीस् ४, ३, २; ७, १, ३;
 १०, ८, २८; ६४; -त्तौ अपं १ :
 ५; मीस् १, १, २४××.
 बौत्पत्तिक^{१७}- -कः लाश्रौ ७,
 १०, ५; मीस् १, १, ५; -के मीस्
 १०, २, ६६.
 बौत्पत्तिक-त्व- -त्वात्
 मीस् ६, २, २९; ८, ४३; ७, २, ५;
 ३, ३.

a) = ऋग् विशेष- [शौ १८, ३, ८ प्रमृ.]। b) = पित्र्य-कर्म-विशेष-। c) सपा. उत्थाय <> उपोत्थाय इति पाठे.। d) पाठे. वैप २, ३६. उत्तिष्ठन् ऐ ७, १५ टि. द्र.। e) पाठे. वैप २, ३६. अधि तैत्रा ३, ७, ६, १९ टि. द्र.। f) उच्छिन्नः इति लासं.। g) विप.। बस.। h) च-विपचा इति पाका.। i) 'स्य-भ्याकुला- इति पाका.। j) तात्रभविकष् ठक् प्र.।

औत्पत्तिक-स्वर- -राणि
 लाश्रौ ७, ११, १८.
 उत्पत्ति- -त्तिः पावा २, १,
 १; ३, २, १२४.
 उत्पत्ति-काल-विशय^१- -ये
 मीस् ४, ३, ३५.
 उत्पत्ति-तसः(ः) मीस् १०, ३, ४५.
 उत्पत्ति-तादर्थ्य- -र्थात् मीस्
 १०, ८, २८.
 उत्पत्ति-देश^२- -शः मीस् ५, १,
 १६.
 उत्पत्ति-नामधेय-त्व- -त्वात्
 मीस् ८, ३, २३.
 उत्पत्ति-रूप- -पेण शाश्रौ ६,
 १, ३.
 उत्पत्ति-वचन^३- -नम् मीस्
 ९, ३, १.
 उत्पत्ति-वचन- -नात् बौश्रौ
 २५, ३ : २१.
 उत्पत्ति-वा-प्रसङ्ग- -ङ्गः पावा
 ३, १, ९४.
 उत्पत्ति-वाक्य^४- -क्येन मीस्
 ४, ४, ४०.
 उत्पत्तिवाक्य-त्व- -त्वात्
 मीस् ११, ३, ११.
 उत्पत्ति-शब्द-त्व- -त्वात् मीस्
 ९, ३, २२.
 उत्पत्ति-शेषवचन^५- -नम् मीस्
 ७, ४, ९.
 उत्पत्ति-संयोग- -गात् मीस् २,
 २, २२; ३, १, १०; ४, २, २५; ३१;
 ३, ३३; ५, १, १३; ६, २, २.
 उत्पत्ति-संबन्ध- -न्धः मीस् ३,
 २, १.

उत्पत्ति-सामर्थ्य- -र्थात् मीस्
 १०, ५, २३.
 उत्पत्त्य (ति-अ) र्था (र्थ-अ) वि-
 भाग^६- -गात् मीस् ७, १, २.
 उत्पत्त्य(ति-अ)संयोग- -गात्
 मीस् ३, ७, २९; ४, २, १४; ३, २६.
 उत्-पद्यमान- -ने आशि ८, २.
 उत्-पन्न, ज्ञा- -ज्ञः निस् ५, ५ :
 ३३××; वौगृ; -न्नम् निस् ४,
 २ : २०; ६, ६ : २२; २४; विध
 ५, १८३; -न्नस्य निस् ५, ५; ३५;
 या १, २; -ज्ञा निस् ६, १० :
 ११; -ज्ञाः विध १५, ३७; वैध ३,
 १२, ३; -ज्ञात् वैध ३, ११, ५; ८;
 १२, १; -ज्ञान् वैध १, ९, १५;
 -ज्ञानाम् आश्रौ ३, ५, ८; ६, ७;
 वौध ३, १, १४; २, ८; ११, १; या
 १, २; -ज्ञायाम् आपध १, ७,
 १४; हिध १, २, ७१; -ज्ञे हिश्रौ
 १५, ८, ३१; निस् २, ७ : १९;
 मागृ २, १५, २; वैगृ ६, १३ :
 ३; अप ५२, ७, १; वाध १५, ७;
 बौध २, २, ११; मीस् ९, ४, २९;
 -ज्ञौ ऋप्रा १३, १८.
 उत्पन्न-न्(प्र>)प्रा^७- पा, पाग
 २, ३, ३७.
 उत्पन्न-पु(त्र>)प्रा^८- -त्रा बौध
 २, २, ६३; -त्राः आमिगृ ३, १०,
 १ : ६.
 उत्पन्न-संयोग- -गात् मीस् ४,
 ४, १३; ६, ४, ३६.
 उत्पन्ना(ज-अ)धिकार- -रात्
 मीस् ३, ५, १०.
 उत्पन्ना(ज-अ)धिकार^९- -रः

मीस् ७, १, १३; ३, ९.
 उत्-पादक->°क-ब्रह्मदात्- -त्रोः
 विध ३०, ४४.
 उत्-पादन- -नम् बौश्रौ २९, ३ :
 ४; -ने बौश्रौ २०, २७ : २४;
 २१, १८ : २७.
 उत्-पादयत्- -यतः विध ३०, ४५;
 -यन् अप ७०^३, २३, ४.
 उत्-पादयित (व्य>) व्या- -व्याः
 आमिगृ १, ५, १ : २७.
 उत्-पादयितुम् वाध ६, ४.
 उत्-पादयितु- -ता विध ५, ६६;
 -तारम् पावा ४, १, ९३; -तुः
 वाध १७, ६३; आपध २, १३,
 ५†; †हिध २, ३, ४; ५.
 उत्-पादित- -तः वाध १७, १३;
 शंध; -तम् बौगृ ३, ४, ३४;
 वाध १७, ५१; वौध २, २, १४.
 उत्पादित-पुत्र^{१०}- -त्राः आमिगृ
 २, ५, ६ : २४.
 उत्-पाद्य बौश्रौ २९, २ : १७××; वाश्रौ
 उत्पन्न^{११}- (> औत्पत्तिक- पा.) पाग
 ४, ४, १५.
 उत्पल^{१२}- पाग ५, २, १३५; -लानाम्
 अप ६८, २, २९; -लानि आज्यो
 ३, ३; -ले कौस् ३६, ७; -लैः
 अप १, ४३, ८; ४४, ३.
 उत्पल-कुष्ठ- -ष्टैः अप १, ४४, १०.
 उत्पल-कोश-गन्ध^{१३}- -न्धः अप
 २४, ६, ४.
 उत्पल-माला->°लि (न्>)नी^{१४}-
 -नी अप १८, १, १७.
 उत्पल-वैदूर्य-प्रभावा(व-अ)जन-
 संनिभ^{१५}- -भैः अप ६५, १, १०.

a) द्रस. > षस. उप. = संशय-। b) विप.। बस.। c) तृस. पू. = उत्पत्तिपदघटितमन्त्र-। d) मलो.
 कस.। e) समाहारे द्रस.। f) द्रस. > षस.। g) °योगिष्वाव इति जीसं.। h) तु. पागम.। i) अर्थः व्यु. च ?।
 उत्पन्न- इति BPG.। j) नाप.। वैप ३ द्र.। k) विप.। षस. > बस.। l) = ओषधि-विशेष-। m) विप.।
 द्रस. > तृस.। प्रभावा- इति?। प्रभा-भाजन-संनि° इति शोधः संभाव्यते तत्पक्षे °भाजन->°वाजन-इति वावि. इति मतम्।

उत्पल-हस्तक^a- के अप ६८, २, २९.
 उत्पलि(न>)नी- पा ५, २, १३५.
 ?उत्पवाधत अप ४८, ११६१.
 उ(द्>)त्√पञ्> षउत्-पश्यत्^b-
 -श्यन्तः द्राश्रौ ६, ४, ९^३; लाश्रौ २, १२, १०^३; जैगृ १, ४ : १२;
 (-श्यन्तः) आश्रौ ६, १३, १५;
 शाश्रौ ४, १३, १; काश्रौ.
 उ(द्>)त्√पा^b, उत्पिपीते वौश्रौ
 ७, १२ : २९१; ४२; ५४;
 उत्पिपीति^c अप ४८, १७^३.
 उत्-पाटन- उन्-पाठ्य उत्√पट् द्र.
 उत्-पात^d- पाग ४, ३, ७३; -तः
 अप ७०, १०, १; -तः वैश्रौ
 २०, ३९ : ११; अप ३, ३, ७४×;
 -तान् अप १, ९, २; ६४, १, १;
 ७१, १, १; २, ४; -तानाम् अप
 २, २, ३; ७०, १, २; -ते अप
 २४, १, २; -तेन पावा २, ३,
 १३; -तेषु कौगृ ३, ९, २; शांगृ.
 औत्पात पा ४, ३, ७३.
 औत्पातिक^e- -कम् अप ६४, ८,
 २; -कानि अप ७०^३, १३, ५.
 उत्पात-गण- गेषु अप ६४, १, ४.
 उत्पातगण-वर्जित- -तः अप
 ६८, ४, ५.
 उत्पात-ज- -जम् अप ६४, ४, ८;
 १०, ८; ६९, ६, ४.
 उत्पात-ज्ञान-कोविद^f- -दः अप
 ५४, १, २.
 उत्पात-दर्शन- -ने अप ५०, ३, ५;
 ४, १; ७, ५.
 उत्पात-निमित्त- -त्ताभ्याम् वाध

१०, २१.
 उत्पात-फल-नाशि (न् >) नी-
 -नीम् अप ६४, १०, १०.
 उत्पात-राज- -जः वाधूश्रौ ४, ३७ :
 २५६.
 उत्पात-लक्षण- -णम् अप ६३,
 ५, ४; ६४, १, २; ३; २, ७; ७,
 ७; १०; ६५, ३, ५; ७०^३, २३, १.
 उत्पात-विहित^g- -तान् अप ६८,
 ५, २३.
 उत्पात-शमन-त्रित्व^h- -त्वम् अप
 ७०, १, ३.
 उत्पात-शमना (न-अ) र्थ- र्थम्
 अप ७०, ७, ४.
 उत्पात-सङ्घ- -ङ्घैः अप ७०^३, ३२,
 २८.
 उत्पात-हृदयⁱ- -यम् अप ६३, ५, ६.
 उत्-पाद्- (> औत्पाद्- पा.) पाग
 ४, ३, ७३.
 उत्पादक- प्रभृ. उत्√पट् द्र.
 उ(द्>)त्√पिच् (विस्तारे), उत्पि-
 चति वाधूश्रौ ४, ७१ : ५.
 उ(द्>)त्√पिप्, उत्पिनष्टि बौश्रौ
 १५, ३० : २३.
 उ(द्>)त्√पुच्छ- -च्छे पा ६, २,
 १९६.
 उत्पुट^j- (> औत्पुट-, औत्पुटिक-
 पा.) पाग ४, २, ७५; ४, १५.
 उत्पुट^k- (> औत्पुटिक- पा.) पाग
 ४, ४, १५.
 उ(द्>)त्√पू, उत्पुनीयात् बौश्रौ
 २०, ६ : १४; १० : २६; २८;
 २३, ३ : ३०; २५, ११ : १५;
 २७; १४ : १९; १५ : १७.

उत्पुनाति काश्रौ २, ३, ३२××;
 आपश्रौ; उत्पुनन्ति वाधूश्रौ २,
 १४ : २; †उत्पुनामि आपश्रौ
 १८, १३, २१^१; वौश्रौ ६२,
 ९ : ६^१; माश्रौ १, २, ३, १२;
 हिश्रौ १, ६, २६; १३, ५, २०^१;
 आगृ १, ३, ३; कौगृ १, ४,
 ५; शांगृ १, ८, २१; कौसू २,
 ३४; †उत्पुनातु आपश्रौ १, ११,
 ९; वौश्रौ; माश्रौ १, २, ५, १८^m;
 वाश्रौ १, २, २, १०^m; हिश्रौ ३, ८,
 ५४^m; वागृ १, १५^m; गोगृ १, ७,
 २३^m; जैगृ १, २ : ७^m; द्रागृ १,
 २, १४^m; उत्पुनीयात् वाधूश्रौ २,
 १४ : ४.
 इत्-पवन- -नम् माश्रौ १, १, ३,
 ४३; २, २, १; वाश्रौ १, १, १,
 २६; हिश्रौ ३, ८, ५४; आगृ १,
 ३, २; शंघ १७६; -नात् हिश्रौ
 १, ७, ३७; -नाय बौगृ २, ११,
 ६३; -ने बौश्रौ २०, ६ : १३;
 -नेन विध २३, ३०.
 उत्पवन-काल- -ल्ले आपश्रौ ८,
 १०, २; २४, ३, २६.
 उत्पवना (न-अ) र्थ- र्थम् कप्र
 १, २, ११.
 उत्-पाव- पा ३, ३, ४९.
 †उत्-पूत, ता- -तम् आश्रौ २, ६,
 १०; आपश्रौ; -ताः आपश्रौ
 १, ११, ११; -तान् आपश्रौ ८,
 १०, ९; माश्रौ १, ७, ५, २०;
 वाश्रौ १, ७, ३, ९; वैश्रौ ९, २ :
 ८; -तानाम् माश्रौ १, ७, १,
 २१; -ताभिः वैध ३, ६, ४; -ते

a) विप. । बस. । b) वैप १ द्र. । c) उत्प^० इति पाठः ? यनि. श्लोघः । d) = उत्पातप्रति-
 पादकशास्त्र- प्रभृ. । वैप १ द्र. । e) तस्येदमित्यर्थे ठक् प्र. उंसं. (पा ४, ३, १२४) । f) षस. > षस. । g) उत्परेण
 संधिरार्षः । h) विप. । बस. उप. भाप. । i) षस. उप. = तत्त्व- । j) अर्थः ध्यु. च ? । k) उत्पत- इति
 पाका., उडस्पूत- इति पासि. । l) पाभे. वैप १, ८९० D द्र. । m) पाभे. वैप १ पुनातु तै १, २, १, २ टि. द्र. ।

माश्रौ ९, १५, १०; माश्रौ ३, १, २१; -तेन आपश्रौ १, ८, १; माश्रौ; -तैः वैश्रु ४, ११ : १; १२ : २.	१६; वाधुश्रौ ३, ९८ : १.	१०, ७; शांश्रु १, १६, ७; वाश्रु १५, १९; -ङ्गे कौश्रु १, १४, ८; शांश्रु १, २२, ९; ५, ७, ३; काश्रु २८, ५; वाध १२, ३५; वीध २, ३, २६; विध ६८, २१; गौध ९, ५६; वृदे ६, ३६.
उत्पूत-शुष्म ^१ - -गम् बौश्रौ ३, १६ : ५ ^१ .	उ(द्)त्/पू, ?उदप्रोष्ट ^१ माश्रौ ३, ५, ९; ऋउत्प्रोष्टाः आश्रौ ३, १४, १३; आपश्रौ ९, १६, ११; बौश्रौ २७, ४ : १५; माश्रौ ९, ९, ८; हिश्रौ १५, ४, ४९; अप्राय ४, २.	बौत्सङ्गिक- पा ४, ४, १५.
उत्पूना(त-अ)भिमन्त्रित- दुग्ध ^१ - -गम् वैश्रौ ९, १ : १० ^{१०} .	उ(द्)त्/पुषु ^१ > ऋउत्-पुषु ^१ - -पुषु ^१ काश्रौ ३, ८, १; कौसु ६, १; अप्राय १, ३.	उत्सङ्ग-पूरण- -गम् अप ६८, २, १६.
उत्-पूय काश्रौ ४, १०, ५×४; आपश्रौ; वाश्रौ ३, ३, २, २८ ^{२०} .	उ(द्)त्/प्र- (प्र/इ)क्ष ^१ > उप्रेश- -क्षा ^१ वौशि १, ७ : १३; १३ : ८; -क्षा ^१ आश्रु ३, ५, ८ : ११; ६, ४ : ८.	उ(द्)त्/सद्, उत्सीदति बौश्रौ ६, ३ : १६; १७, ५१ : १८; ५२ : ११; ५३ : १३; १८, २० : २३; २५, ६ : ९; २६, २९ : ९; वाधुश्रौ २, ११ : १४; उत्सी- दन्ति बौश्रौ १०, १२ : १३; १५, १३ : २; उत्सीदेत् बौश्रौ २२, १७ : १८; २५, ३ : २०; निम् २, ८ : ३२; उद्...सीदेत् बौश्रौ १४, १९ : ३४; हिश्रौ ३, ८, १०; उत्सीदेयुः बौश्रौ २६, ३३ : ३.
उत्-पूयमान, ना- -नम् वैश्रौ २०, २७ : २; हिश्रौ १५, ४, १; अप्राय ४, १ ^२ ; -नाः आपश्रौ ४, ५, ६; माश्रौ ४, ७, ५; वैश्रौ ५, ४ : ६; हिश्रौ ६, २, ८.	उ(द्)त्/प्लु, उत्प्लवते आपश्रौ १३, २०, ११.	उत्सादयति काश्रौ ८, ३, १८; बौश्रौ ६, २८ : ४; २९ : २; ७, ४ : ७; ५ : १४; ८, ९ : १२; हिश्रौ ८, ६, ३७; उत्सादयन्ति बौश्रौ २४, ३७ : ३; उत्सादयेत् बौश्रौ २६, ३१ : १७; १८.
२उत्पूत- (> औत्पूतिक-) उत्पूत- टि. द्र.	उत्-प्लवमान- -ने माश्रौ ३, ५, ९.	उत्-सदन- -नात् या १०, ९.
उ(द्)त्/पूर्व ^१ - -वैः तैप्रा ५, १४; अप्रा ३, २, १.	उत्-प्लुत- -तः वैश्रौ १६, २६ : ५; -तम् माश्रौ २, ५, ४, ३१.	उत्-सन्न- -न्नः बौश्रौ १५, ३६ : १२; -न्नम् शांश्रु १७, ६, २; बौश्रौ ३, १४ : १०; १४, १५ : १९; -न्नाः अप्राय ३, ७; आपध १, १२, १०; हिध १, ४, १०;
उ(द्)त्/पृष्ठ ^१ - -ष्ठः बौश्रौ १७, ३० : ७; ९.	उत्-प्लुत्यो(य-उ)प्लुत्य सु १८, २.	
उ(द्)त्/प्र/दा (दाने), उत्प्रदाय बौश्रौ ६, २० : १२; ३० : ९; २५, १२ : ७; १५ : १९.	उ(द्)त्/फुल्ल ^१ > उत्-फुल्ल- पावा ८, २, ५५.	
उ(द्)त्/प्र/यच्छ, उत्प्रयच्छति बौश्रौ १, १२ : ६; ८; ११; १३; १५; ५२; ५५; ५७; ६, २४ : ३९; ३० : ९; ७, ६ : १२; १४; ८, १ : १५; १८; ९ : ८; १०; ९, ८ : ४; ७;	√* उत्सु (लात्सायाम्) > उत्सुक ^१ (> √ उत्सुकाय पा.) पाग ३, १, १२.	
उत्प्रयच्छेत् बौश्रौ २५, १२ : १.	१उत्स- ^१ - १औत्स- ^१ , औत्सायन- पा.) पाग ४, १, ८६; ११० ^१ .	
उत्प्रयच्छत् - -च्छन् बौश्रौ ६, ११ :	२उत्स- √उद्, न्द्र द्र.	
	उत्-सक्थि ^१ - -क्थयोः शांश्रु १६, ३, ३६ ^३ .	
	उत्-स(क्थ)क्थी ^१ - -क्थ्याः काश्रौ २०, ६, १७; शुश्र ३, ३०.	
	उ(द्)त्/सङ्ग ^१ > उत्-सङ्ग ^१ - पाग ४, ४, १५; -ङ्गम् कौश्रु १,	

a) वैप १ द्र. । b) कस. > कस. । c) पाठः ? ँधे इति शोधः (तु. सप्र. आपश्रौ ८, ९, ८ बौश्रौ ५, १० : ८) । d) सकृत् पूयो इति पाठः ? यनि. शोधः (तु. आपश्रौ १८, १३, २१) । e) विप. । बस. । f) पाठः ? उदप्रोष्टाः [मपु१] इति शोधः । g) पामे. वैप १, ८९१ गृ द्र. । h) परस्परं पामे. । i) वैप ३, १७९ f द्र. । j) = ऋषि-विशेष- । व्यु. ? । k) कुत्त- इति पाका. । l) प्रास. । पृ ३९० a उदव...धेहि इति नेष्टम् । m) पामे. वैप १, ८९१ l परि. च द्र. ।

-ञे बौगृ ४, ९, १२; वैगृ ७, ४ : १९.
 उत्सन्न-यज्ञ- -ज्ञः शाश्रौ १४, ४७, २; भाशि ११२कं.
 उत्सन्न-शय्या- -य्या बौगृ ३, २, ६२.
 उत्सन्न-श्ला (> घा) घ^१- -घः आपध १, २, २७; हिघ १, १, ६०.
 उत्साद^२-> ङद-तस् (:) माश्रौ १, ८, ५, १८; ५, २, ९, ५^२; ऋप्रा २, ४१.
 उत्-सादक^३- पाग २, २, ९; ६, २, १५१.
 उत्-सादन- -नम् माश्रौ ४, ४, १; -नात् बौश्रौ २५, ६ : ९; -ने बौगृ ३, ९, ३८; शागृ ४, ७, ४३; -नेन बौध १, ५, ८२.
 उत्सादन-देश- -शम् काश्रौ २६, ७, १०.
 उत्सादनीय, या^४- -यान् वाश्रौ १, ५, १, ३; -याम् वाश्रौ १, ५, १, २.
 उत्-सादित- (> ०सादित्- पा.) पाग ५, २, ८८.
 उत्-साद्य आश्रौ १२, ४, ५; बौश्रौ.
 उत्-साद्य- -द्यम् कौस् ११, १६.
 ङउत्-साद्यमान- -नाय बौश्रौ ९, १२ : ५; हिश्रौ २४, ५, ४^२.
 ङउत्-सीदत्- -दतः आपश्रौ ५, २६, ५; माश्रौ ५, १७, ९; १८, १^२; वाश्रौ १, ५, १, ३^३; वैश्रौ १, १९ : ६; हिश्रौ ३, ६, ५.
 उत्सरि^५- -रयः बौश्रौ प्र ३१ : ९.
 उत्-सर्ग- -प्रभृ. उत्/सृज् द्र.
 उ(द् >)त्/सर्ज् (*अव्यक्तं शब्दे)^६,

उत्सर्जति^७ बौश्रौ ६, २५:३; १०, १७:९; उत्सर्जत् हिश्रौ ७, ५, ७^६.
 उत्-सर्पण-, *सर्पत्- उत्/सृप् द्र.
 उ(द् >)त्/सह्, उत्सहताम् या ४, १९; उत्सहेत आपश्रौ १९, १३, १२; हिश्रौ २३, २, ४५; वैताश्रौ २०, २१.
 उत्-साह- पाग ५, २, १३६; -हम् अप ४२, २, ७.
 उत्साह-कर्मन्^८- -र्मणः या १, ७; १०, ६.
 उत्साह-वत्- पा ५, २, १३६.
 ऽउत्साहिन्- पा ५, २, १३६.
 उत्-साहक- उत्-सादक- टि. द्र.
 २उत्-साहिन्- पाग ३, १, १३४.
 उ(द् >)त्/सि (बन्धने), उत्सि- नाति या ५, १९कं.
 उ(द् >)त्/सिच्, ङच्, उत्सिञ्चति काश्रौ ४, १४, २७; आपश्रौ १६, १८, २; बौश्रौ २, ५ : २८; वाश्रौ १, ५, २, ४६; वैश्रौ १८, १५ : ११; हिश्रौ ३, ७, ९८; ७, ३, ७४; ११, ६, २४; जैगृ १, ४ : १९; बौध २, ५, ३०; उत्सि- ञ्चन्ति आमिगृ २, ६, ३:५६; बौपि ३, ४, २४; उद्...सिञ्चध्वम् बौश्रौ १८, २९ : ७कं; उत्सिञ्चेत् बौध २, ३, ३.
 उत्सिञ्चेत् बौश्रौ २७, ३ : १०; १२.
 उत्-सिच्य शाश्रौ २, ९, १४; आपश्रौ.
 उत्-सेक- -के बौश्रौ १७, ३१ : १७.
 उ(द् >)त्/सिघ् > ऽउत्-सेघ^९- -घः जुस् ३, ११ : २७; -घस्य क्षुस् ३, ११ : २८.

उत्सेध-निषेध- -घौ लाश्रौ ७, ४, १; निस् ६, १० : ३३; ८, ४ : १७; १०, २ : ३४; ६ : ६.
 उत्सेध-मध्य^{१०}- -ध्यम् निस् ६, १० : २५.
 उत्सेध-स्थान- -ने द्राश्रौ ८, ३, ३; लाश्रौ ४, ७, १.
 २उत्मे(घ>)घा^{११}- -धाम् बौश्रौ २, ६ : २९; ३०.
 उ(द् >)त्/सिघ् > उत्-सीव्य कौस् १६, ३; २६, ४३.
 उत्सुक-, √उत्सुकाय √उँत्स् (लालसायाम्) द्र.
 उ(द् >)त्/सू(प्ररणे) > उत्-सव^{१२}- -वः अप ४, २, १४; १९^२, ५, ४; -वानाम् अप ६८, ५, १०; -वे गौध १६, ४३; -वेषु आमिगृ २, ६, ७ : ३७.
 उ(द् >)त्/सृ > उत्-सरण- -णात् या १०, ९.
 उ(द् >)त्/सृज्, उत्सृजते आश्रौ ८, ९, ७; ङशाश्रौ; उत्सृजति शाश्रौ १०, ८, १६x; काश्रौ; आपश्रौ ५, २७, ३^१; उत्सृजन्ति आश्रौ ६, १४, ११; शाश्रौ; उत्सृजामि वैश्रौ ३, ४ : ३कं; हिश्रौ १, २, २८कं; कौस् १७, १९^३कं; बृदे ३, १९^३; ङउत्सृजामहे कागृ ९, १०; मागृ १, ४, ९; वागृ ८, ७; ङउत्सृजतु बौश्रौ १३, ३२:११; १३; १४; मागृ १, ९, २३; उत्सृज भागृ २, ७ : २१कं; हिगृ २, ७, २कं; गोगृ ४, १०, १९; कौस् १७, १८; उद्...सृज बौश्रौ ६, १९ : २५; ङउत्सृजत शाश्रौ ४, २१, २४

a) विप. । बस. । b) वैप १ द्र. । c) तु. पाका. । उत्साहक- इति भाषडा. प्रभृ. । d) = होम-विशेष-, इष्टि-विशेष- । तदर्हतीयः छ>ईयः प्र. । e) = ऋषि-विशेष- । म्यु. ? । f) वैप १ उत्/सृज् इत्यत्रापि यनि. विवेकः द्र. । g) परस्परं पाभे. । h) वैप २, ३खं. द्र. । i) विप. (अरणी-) । j) पाभे. पृ ४०० i द्र. ।

बौश्री; ऋदसृजत् आपश्री ८, २१, १; बौश्री ५, १८ : १८; वैश्री ९, १२ : १५; हिश्री ५, ६, ४; ऋदसृजः आपश्री १७, २१, ७; हिश्री १२, ६, २६; उत्सृजेत् आश्री ५, ६, ३; शाश्री; उद्...सृजेत् बौश्री २, ७ : १९; उत्सृजेरन् शाश्री १३, २०, २; ५; वाश्री ३, २, ४, १; २; पाश्रु २, १२, १; ३, ९, ६; उत्सृजेयुः आपश्री २१, २४, ३; २५, ४; ६-८; ११; हिश्री १६, ८, १८; १९^३; २०; पाश्रु २, ११, १०; बौध १, ५, १४३^२.
 उत्सृष्टास्महे वाश्री ३, २, ४, ३^१; उत्सृक्ष्यामि शाश्री १५, २२, १^१; उत्सृक्ष्यावः, उत्सृक्ष्यामः शाश्री १५, २२, १; उदसृक्षाक्षीत् बौश्री १५, ३१ : १७; ३४ : ४.
 उत्सृज्यते शाश्री १, १५, १८××; उत्सृज्यते शाश्री ५, १८, १२; उत्सृज्यन्ते शाश्री १४, २२, २४; १७, १७, ९; आपश्री २१, २५, २; बौश्री २६, ११ : १०.
 उत्सृक्षेत् पाश्रु १, ३, २८.
 उत्-सर्ग^१ -र्गः आश्री २, ७, २०; शाश्री ३, १६, १९; १८, १९; आपश्री २२, २, २२; २५; हिश्री १७, १, ३७; वैताश्री २४, १२; कौश्रु ३, ८, १; शांश्रु ४, १५, २१; आमिश्रु १, २, २ : १; काश्रु १८, ३; बौश्रु ३, ९, १; भाश्रु ३, ८ : १२; हिश्रु २, १८, ८; हिपि १२ : १०; जैश्रु १, १५ : १; द्राश्रु ३, २, २४; कप्र ३, ९, ३; कौश्रु १४१, ५; बौध १, ४, ५; ५, ४३; ६, २८; ३२; ३४; ४४; गौध १,

३६; २२, ३३; शुश्रु ४, १८१; पावा ३, २, १७१; -र्गम् आश्री १२, ४, २१; बौश्री ६, १४ : १२; भाश्री १०, १६, ७; कौश्रु ६८, ३७; विध ३०, २; -र्गस्य पावा ३, १, ९४; मीश्रु १०, ३, ७१; -र्गात् पाश्रु २, १०, २५; मीश्रु ९, ३, ३९; -र्गे आश्री २, २, १; बौश्री २३, १४ : १४; आश्रु ३, ५, १३; कौश्रु ३, ७, १३; शांश्रु ४, ५, १७; हिश्रु १, १३, १२; १४; जैश्रु १, १४ : १३; कप्र १, १०, ७; ९; अप ४६, ७, ४; ५; बौध १, ५, ७३; विध ३०, २५; पावा २, ३, १; मीश्रु ३, ७, १९; ९, ४, ४८; ११, २, ४९; १२, ४, २५; -र्गेण आपश्री १६, २७, २०; वैश्री १८, १९ : २५; हिश्री ११, ७, ६२; विध ५४, २८; -र्गेः काश्री १७, ५, १९; आपश्री १६, २७, १३; १९; माश्री ६, १, ७, २९; ३१^२; वाश्री २, १, ७, १२; १३; वैश्री १८, १९ : २३; २५; हिश्री ११, ७, ५९; ६१.
 उत्सर्ग- -र्गः पावा ३, १, ३४; ४३; -र्गात् पावा ४, ३, १३२.
 उत्सर्ग-काल- -ले काश्री २०, ४, १२; वृदे ४, १२.
 उत्सर्ग-पूर्वक^१ -कः मीश्रु ४, २, २९.
 उत्सर्ग-प्रतिषेध- -धः पावा ५, ३, ७२.
 उत्सर्ग-प्रास- -सानि आपश्री २१, २५, ५.
 उत्सर्ग-योग- -गात् काश्री १, २, १६.
 उत्सर्ग-लक्षण- -गानाम् पावा

१, १, ५७.

उत्सर्गलक्षण-प्रतिषेध- -धः पावा २, ४, ३५.

उत्सर्गलक्षण-भावा (व-अ) र्थ- -र्थम् पावा ६, १, ८५.

उत्सर्गलक्षण (ण-अ) प्रसिद्धि- -द्धिः पावा ६, १, ८५.

उत्सर्ग-चत् मीश्रु १०, ७, ९.

उत्सर्गा (र्ग-अ) पवाद्-विप्रतिषेध- -धात् पावा ४, ३, १३२.

उत्सर्गा (र्ग-अ) प्रतिषेध- -धः पावा २, ३, १.

उत्सर्गा (र्ग-अ) बाधक-त्व- -त्वात् पावा ३, १, ६; ७, ४, ८२.

उत्सर्गा (र्ग-अ) भाव- -वात् पावा ६, १, ८५.

उत्-सर्गम् आपश्री १०, २४, ९.

उत्-सर्गिन्- > र्गिणाम्-अयन^१-

-नम् काश्री २४, ७, २२७; आपश्री २१, २४, १; २५, १३^३; वाश्री ३, २, ४, १; हिश्री १६, ८, १६; -ने शाश्री १३, २०, १; बौध १, ६, ३०; -नेन बौश्री १७, २२ : १.

उत्-सर्जन- -नम् शाश्री ४, ७, १८; काश्री; -नात् आपश्री १, ४, ६;

भाश्री १, ३, २०; हिश्री १, २, ३९; आपध २, ५, १६; हिध २, १,

९८; -नानि द्राश्री ८, ४, ८; लाश्री ४, ८, ८.

उत्सर्जनो (न-उ) पाकर्मन्- -र्मणोः विध ३०, ३.

उत्-सृक्ष्यत्- -क्ष्यन् द्राश्री १, २, १९; गो २, २३.

उत्-सृजत्- -जन् वैश्री २१, २ : ५; ६; आपध; -जन्तः शाश्री १६,

२३, १३; बौश्री १७, २२ : १४;

-जन्तम् वाध १९, ४६.

उत्-सृजमान- -नः आपध १, २६, ११; २, २१, १०; २१; हिध २, ५, ११९^३; १३०^३ -नस्य आपधौ ८, २१, ५; -नाः शांश्रौ १३, २०, ८; १५.

उत्-सृज्य आश्रौ १०, ६, ७; शांश्रौ; या १४, ८; ९.

†उत्सृज्य- -ज्याइम् आपधौ २१, २४, २३.

उत्-सृज्यमान, ना- -नम् वैताश्रौ ३७, १९; -नाः वैताश्रौ २१, २६.

उत्-सृष्ट, ष्टा- -ष्टः पागृ ३, २, ५; वौध २, २, २३; विध ८६, १९; -ष्टम् आपधौ २१, २५, ७; वैश्रौ ३, ४ : ५; हिश्रौ १, २, २९†; वैताश्रौ ३६, २०; -ष्टान् आपध २, २८, ७; हिध २, ६, ७; -ष्टानाम् माश्रौ ६, १, ३, १०; -ष्टाम् कागृ २४, १९†; -ष्टायाम् आमिगृ २, ६, ६ : ३०; वौगृ १, २, ५१; -ष्टे माश्रौ ३, १, ३५; -ष्टेषु पागृ २, ११, ३.

उत्सृष्ट-पुंश्चल्य(ली-अ)भिदास्ता- (स्त-अ) नपदेश्य-दाण्डक-तक्ष-कदर्थ-बन्धनिक-चिकित्सक-मृग-यव(यु-अ)निषुचार्यु(रि-उ)च्छिष्ट-भोजि-माण-विद्विषाण- -गानाम् गौध १७, १५.

उत्सृष्ट-लोमन्^b- -मा गौध ६६, ३.

उत्सृष्ट-वृषभ-सूतिका^c-

-कानाम् विध ५, १५०.

उत्सृष्टा(ष्ट-अ)मि- -मिः^d आपधौ ५, २७, ४; बौपि २, ५, १; हिपि २१ : ११; गौपि १, १, २४.

उत्-सृक्ष्यत्- -क्ष्यन् आश्रौ १०, ६, २; बौश्रौ १४, १३ : ३५; १५, २६ : १३; १७, ४४ : १२; आगृ १, २४, ३२४ आमिगृ ३, ५, ८ : ३; वौगृ १, २, ५०; बौपि १, ७ : ५.

उत्-सृष्ट- -ष्टारः हिश्रौ १६, ८, २४^३.

उ(द् >)त् ✓सृप्, उत्सर्पति काश्रौ १५, ८, २; उत्सर्पेत् आपधौ १९, १४, १३; २४, २, २१; वौश्रौ १९, ६ : ११; हिश्रौ २३, ३, ११; हिपि १३ : ११.

उत्-सर्पण- -णात् या १२, १३.

उत्-सर्पत्- -र्पन् पागृ २, ७, १५.

उत्-सृप्त- -प्ते काश्रौ ४, ८, १९.

उत्-सृप्य आश्रौ ४, १५, १०; ११; काश्रौ.

†उत्सृष्टा^f वाश्रौ ३, ४, ३, १७.

उत्-सेक- उत् ✓सिच् द्र.

१-२उत्-सेध- प्रष्ट. उत् ✓सिध् द्र.

उ(द् >)त् ✓स्कन्द् पावा ८, ४, ६१.

†उ(द् >)त् ✓स्ना, उत्स्नाति^g आपधौ २, १०, ६; बौश्रौ १, १४ : ११; माश्रौ २, १०, ७; हिश्रौ १, ८, २३; उत्स्नातु^h माश्रौ १, २, ६, २०; वाश्रौ १, ३,

३, २४.

उत्-स्ना(त >)ता- -ता या ७, १२.

उ(द् >)त् ✓स्यन्द् > उत्-स्यन्दन- -नात् या १०, ९.

उत्-स्यन्दित्वा आपधौ १८, १३, ८.

उ(द् >)त् ✓स्रु > उत्-स्त्राविन्- -विणः या ४, १९^३.

उ(द् >)त्-स्वरⁱ- -रम् माशि १२, ६.

उ(द् >)त् ✓स्विद् > उत्-स्वेदन- -नम् शंघ १७५.

✓उद्, इन्^j पाधा. रुधा. पर. क्लेदने, उन्दति काश्रौ ५, २, १४; हिश्रौ ५, २, ६९; आगृ १, १७, ७; १८, ४; पागृ २, १, ९; गोगृ २, ९, १२; कौसृ ५३, १८; उन्देत द्रागृ २, ३, २२.

उनत्ति काश्रौ ७, २, ७; आपधौ;

हिगृ २, ६, ६; या २, २४;

उन्दन्ति हिश्रौ ५, ५, २८; ६,

४; उनत्तु^k वैगृ ३, २३ : ५†;

†उन्दन्तु काश्रौ ५, २, १४;

आपधौ.

उन्दयति अप ४५, १, ८.

२†उत्स^l- पाउ ३, ६८\$; -त्सः

आपधौ ४, ७, २; ११, ३; बौश्रौ;

या १०, ९\$†; -त्सम् आपधौ

१, १३, १^m××; बौश्रौ; माश्रौ

१, १३, ३^m; माश्रौ १, १, ३,

२३^m; वाश्रौ १, २, २, २०^m;

वैश्रौ ३, ७ : ९^m; हिश्रौ १,

३, ३६^m; या १०, ९; १३;

a) *सृज्य* इति पाठः? यनि. शोधः (तु. आपध.)। b) विप.। बस.। c) कस. > द्रस.। d) पाभे. पृ ४०१ d। द्र.। e) *सृ* इति पाठः? यनि. शोधः। f) पाठः?। बत्सवत्याः इति ?समान्तरा (=समाम् [=अद्दम्] अन्तरा), ?अनुचः किहा इति ? *अनुवाकेन *एनां (=वत्सवतीमुकाम्) ?दुं- *संसृष्टा (इयम्) इति ([कृत्वा], वि-कथा-> [स्वायें] वैकथ->) ?वैकथिता-> -नाम् [सतीम्] ?उत्-संसृष्टा (अवतीति शेषः)। g) पाभे. वैप २, ३३. उत्स्नाति तैत्रा ३, ७, ५, ३ टि. द्र.। h) उस्ना इति ल. प्रष्ट.। i) बस. वा. क्विवि.। j) या १०, ९, ४१ परासृष्टः द्र.। k) *नक्तु इति पाठः? यनि. शोधः (तु. सप्र. हिगृ २, ६, ६)। l) वैप १ द्र.। m) पाभे. वैप १, ११७४ j द्र.।

-त्सस्य वीथौ १२, ८ : १० ;
-त्साः या ११, १; -त्सानि
काथ्रीसं ४ : १६; -त्सेषु कौसू
११५, २; -त्सौ आथ्री ३, १२,
२३; आपथ्री.

२औत्स- -त्सम् वाथ्री १,
४, २, १.

१उद्^a- उदा वृदे ४, २३.

१उद्^a- -द्रः कौसू १२७, २;
शुप्रा ५, ३४; ६, २८; -द्रम्
कौसू १२७, १०.

उद्^a- -दः पा ६, ३, ५७; -दम्
आमिगृ २, ४, ७ : १९.

उद्-कंस- -सान् कौसू ८३, ३०;
-से कौसू ३४, १५; -सेन वीथौ
१४, १२ : २१.

उद्-कमण्डलु- -लुः वीथ १,
७, २८; -लुभिः वीथौ १५, २९ :
२१; -लुम् आथ्री ८, १४, १२;
आपथ्री ३, ८, १; वीथौ ४, ६ :
४१; ११, ५ : १; माथ्री ३, ७,
१; गोय १, ६, २१.

उद्कमण्डलु-हस्त^b- -स्तः
वाध १०, ३१.

उद्-कलश- -शम् कायु ५४, २०.

उद्-कांस्य- -स्यम् माथ्री ३,
८, ३; ४, ७, २; -स्थे माथ्री ३,
८, ३; माय २, ७, २; ११, ९;
-स्थेन माथ्री ३, ८, ३; माय १,
८, ११.

उद्-कुम्भ- -म्भः काथ्री ७, ५,
४; आपथ्री; -म्भम् आपथ्री
१, ८, २××; वीथ्री; -म्भस्य
माथ्री १, ७, ६, ४५; -म्भान्

काथ्री १३, ३, २४; आपथ्री;
-म्भानाम् पाय २, ६, ९; -म्भे
वीथ्री २३, २ : २४; माथ्री
२, १, ४, ७; आमिगृ २, ६, ४ :
२२; ७, १ : २; गौध ५, १६;
-म्भेन वीथ्री २, ८ : ९××;
माथ्री; -म्भैः आपथ्री २१, १८,
७; आमिगृ; -म्भौ वीथ्री ५,
१० : ४, ६; १२ : २१; ६, १ : १५;
९, १३ : २; गोय ३, ९, ७.

उद्कुम्भ-परशु-हिरण्यशकल-
यज्ञपात्र- -त्रागि गौपि १, २, १.

उद्कुम्भ-परिषेचन- -नम्
वीथ्री १३, १८ : ३.

उद्कुम्भ-पुष्पा (प-अ) न्न-
हस्त- -स्तः वीथ १, २, ३२.

उद्कुम्भ-लोप- -पे आमिगृ
२, ७, ४ : ६; वीथ ४, ११, १;
-पेन आमिगृ २, ७, ५ : २.

उद्कुम्भ-व (त >) ती- -ती
काथ्री ७, २, ५.

उद्कुम्भ-वाभिन्^c- -सिनः
वैध १, ८, १.

उद्कुम्भ-शेष- -पम् भाय
२, १० : १०.

उद्कुम्भ-सकाश- -शे आगृ
२, १२, ४.

उद्कुम्भ-हस्त^b- -स्तः शंघ
४०.

उद्कुम्भा (म्भ-आ) दशौ-
(शं-उ) चिह्नरस- -रसम् वीथ १,
६, २२.

उद्कुम्भा (म्भ-अप्) घ >
द्- -म्भाङ्गिः वीथ्री १, ४ : १०.

उद्-कुलिज^d- -जम् कौसू
१२, ६.

उद्-गाह- पा ६, ३, ६०.

उद्-घात- -तम् आमिगृ २, ५,
११ : ६.

उद्-घोष- -षम् द्राथ्री ९, १,
१५; लाथ्री ३, ५, १४.

उद्-चमस- -सान् काथ्री १७,
३, ३; हिथ्री ११, ६, ४३; -सेन
वीथ्री १४, १२ : २१?^e.

उद्-ज- -जानि अप ६२, ३, ५.

उद्-तन्तु^f- -न्तुम् अप्राय १, ३.

उद्-धान^g- -नः कौसू १३६,
१^h; ६; -नम् आपय १७, ९;
कौसू ७२, १२; -नस्य गोय १,
४, ९; -नानि आपध २, १, १५;

हिध २, १, १४; --न काय ५४,
७; जैय १, २३ : १०; कौसू
७४, ६; ९३, ४३¹; विध ६७,
११.

उद्धानी- -न्याम् आमिगृ
१, ७, २ : ९; भाय ३, १३ : ४;
वैय ३, ७ : १९; -न्यैः आमिगृ
१, ७, २ : ९.

उद्धान-संनिधि- -धौ
आपध २, ३, २१; हिध २, १,
५१.

उद्धाना(न-आ)यतन- -नम्
आपय १७, ८.

उद्-धारा- -रया पाय २, १४,
१९; भाय २, १ : १४; -र।
काथ्री २५, ४, १८; -राम् शाथ्री
२, ६, १२; काथ्री ४, १३, १६;
माथ्री ४, २०, ३; ६, १०, ३.

उद्-धारा- -रया पाय २, १४,
१९; भाय २, १ : १४; -र।
काथ्री २५, ४, १८; -राम् शाथ्री
२, ६, १२; काथ्री ४, १३, १६;
माथ्री ४, २०, ३; ६, १०, ३.

a) वैप १ द्र. । b) विप. । बस. । c) = वानप्रस्थ-विशेष- । उस. उप. <√वस् [निवासे] । d) षस.
उप. = घट- (तु. संस्कृतुः टि.) । e) मोद्^o इति पाठः ? यनि. शोधः (तु. एकं विहाय अन्ये मूको.) । f) = उद्क-
धारा- । षस. । g) नाप. । उप. अधिकरणे व्युद् प्र. । h) पूर्वैण संधिरार्षः (तु. संस्कृतुः टि., भू[LIIX] च) ।
i) पूर्वैण संधिरार्षः (तु. संस्कृतुः टि.) ।

उद्-धि^१— पा ६,३,५८; -धिः
भाग २,५:४; क्रप्र ३,३,६; अप
४८,१००^१; या ६, ५; -धिम्
१^१बौश्रौ ८, १० : १; १०,५९ :
१० : आसिम् १, २, २ : ४५;
२, ४, ३ : १६; ५, ११ : २^१;
बौग ३, ९, १२; भाग ३, ११ :
१२; हिग २, २०, ११; अप्राय
६, २^१; -धीन् सु ९, ३; उस्
५, ५^१; -धीनाम विध १, १५;
-१^१ंधे आपश्रौ १७, २०, १४;
बौश्रौ १०,३७ : १६; वैश्रौ १२,
६ : ३०; हिश्रौ १२, ६, २२;
-धौ पा ८,२,१३.

उद्-धि-गामि(न् >)नी-

नीम् अप ३६, २६, १.

उद्-धि-जल-निर्घोष—

संहाद^१— देषु अप ६५, १, ६.

उद्-धि-जीवराद्रिष्टक-वैडूर्यो-
(र्य-उ)त्पल-कमल-पलाश-धूम-
शेवाल-वध्रजबक-सेनिकाश-
स्निग्ध-घोष-गम्भीर-गभस्ति-
विद्ध-निभ^१— भैः अप ६५,
१, ९.

उद्-धि-धावन-वर्जम् आसिम्
१, २, २ : ४७.

उद्-पात— तान् हिश्रौ २, ७,
३७; ४९.

उद्-पात्र— अः वाधूश्रौ ४, ९०^१;
४; ७; -त्रम् आश्रौ ३, ११, ३;
शाश्रौ; -त्रस्य बौश्रौ २०, २६ :
४८××; कौसू १२, १३; -त्राणि
कौग ३, १४, २; शागृ; -त्रात् कौग
३, १०, ३५; शागृ २, १७, २; पाग
२, ९, १६; कौसू १०९, ८; ११०,

६; १११, ८; आपध १, १३, १;
बौध २, ६, ३; हिध १, ४, १५;
-त्रान् आपश्रौ १, ८, १२; १६,
१९, १०; बौश्रौ २, १३ : २३;
वैश्रौ १८, १६ : १८; आसिम् ३,
१, ३ : २; गोश्र ४, ३, ५; -त्रे
शाश्रौ ४, १५, ५; काश्रौ; -त्रेण
काश्रौ ४, १, ९, ५, ९, १२; बौश्रौ;
-त्रेषु आपश्रौ ५, ५, ४; भाश्रौ
५, ३, ७; हिश्रौ ३, २, ४०; वाश्रौ
१, ४, १, ७.

उद्-पात्र-वन् काश्रौ १७, ३,
८.

उद्-पात्र-शेष— षम् अप
४४, ४, ७.

उद्-पात्रा(त्र-आ)नयन— नम्
आपध २, १७, १७.

उद्-पात्रा(त्र-अ)न्त^१— न्तः
गोश्र ४, ४, १५.

उद्-पात्रा(त्र-अ)वनयन—
नम् जैश्रौका १६२.

उद्-पात्री— न्या काश्रौ १२,
३, ११; -न्याम् कौसू ४३,
१९.

उद्-पान^१— पाग ४, १, ८६; २,
११०^१; ३, ७६; -नः द्राश्रौ १,
१, १७; लाश्रौ १, १, १६; -नम्
गोश्र ३, ५, १३; जैगृ १, १९ :
२५; अप ७१, १२, ५; -ने अप
७२, २, ३.

भौदपान^१— पा ४, १,
८६; २, ११०; ३, ७६; (>भौद-
पानी— पा.)पाग ४, १, ७३.

उद्-पान-तडाग— गानाम्
अप ७१, १, ५.

उद्-पान-मण्डूक— पाग २, १,
४८; ६, २, ८१.

उद्-पाना(न-अ)वेक्षण—>
ण-वृक्षारोहण-फलप्रपतन-संधि-
सर्पण-विवृत्तरनान-विषमलङ्घन-
शुक्लवदन-संध्यादित्यप्रक्षण-भै-
क्षण^१— णानि पाग २, ७, ६.

उद्-पानो(न-उ)दक^१— के
बौध २, ३, ५२.

१^१उद्-पुर, रा^१— रम् आपश्रौ
१६, २३, ९; बौश्रौ १०, ३१ :
१३; वैश्रौ १८, १७ : २७; १२,
५ : १६; हिश्रौ ११, ७, ३१;
-रा माश्रौ ६, १, ७, १४; वाश्रौ
२, १, ६, ३२.

१^१उद्-पू^१— पूः कौसू ८५, २६;
अश्र १८, ३; अपं ३ : २२.

उद्-पेयम् पाग १, १३, १; १४,
३; बैगृ ६३ : ४; वागृ १६, ५;
पा ६, ३, ५८.

१^१उद्-पुत्^१— मुतः आश्रौ ६, १,
२; शाश्रौ ९, ३, ४; १२, १२, ९;
आपश्रौ १४, २८, ४; वैश्रौ २१,
१५ : १३; हिश्रौ १५, ७, १२^१;
वैताश्रौ २५, ७; ऋश्र २, १०,
६८; अश्र २०, १६.

उद्-बिन्दु— पा ६, ३, ६०;
-न्दुना माश्रौ १, ६, १, १८;
-न्दुम् वाश्रौ १, ५, २, १९.

उद्-बुध्न^१— धनम् बौश्रौ २५,
१८ : ८.

उद्-भार— पा ६, ३, ६०.

उद्-मन्थ^१— पा ६, ३, ६० ;
-न्थः जैगृ १, १९ : ३८; -न्थम्
आपश्रौ २२, २६, १; हिश्रौ २३,

a) वैप १, ८९४ e द्र. । b) = अत्र- । षस. > षस. > बस. । c) = अत्र- । समासः! d) विप. । बस. । e) नाप. ।
उप. अधिकरणे ल्युट् प्र. । f) न्यान— इति पाका. । g) विप. । प्राग्दीव्यतीयेष्वर्थेषु अणौ प्र. । h) लप्रचयनसं-
चनशुष्कव इति लाधा. । i) वैप १ द्र. । j) मुषः इति पाठः! यनि. शोधः (तु. काठ ३५, ९) । k) नाप. । तृष. ।

४, १७; अण १, ४९, ७; -न्यान्
कौगृ ३, २, २; शांण ३, २, ४.
उद्-यक्ष्म- > ँक्ष्म-च (त् >)
ती- -ती बौश्री २३, ५ : ११.
उद्-वज्र- पा ६, ३, ६०; -जान्
कौस् ४७, ३१; ४९, १३; २४;
-जैः कौस् ३८, २.
उद्-वास- पा ६, ३, ५८; -सात्
शंघ २८८१.
१उद्-वाह- -हेन आमिण् २, ५,
१० : २७१.
उद्-वाहन- पा ६, ३, ५८.
उद्-वीवध- पा ६, ३, ६०.
उद्-शराव- -वम् भागृ १, २१ :
११; गो १, ८; -वे बौश्री ६,
२ : १२.
उद्-श्वित्- पाउभो २, १, ६३;
पाग ५, ३, १०८; -श्विता आपश्री
१९, ५, ८; हिश्री २३, १, ७.
औदश्वित- पा ४, २, १९.
औदश्वित्क- पा ४, २,
१९; ५, ३, १०८.
उद्श्वित्-क्षार-मिश्र- -श्रम्
बौश्री २३, ७ : २४.
उद्-सक्तु- पा ६, ३, ६०.
उद्-स्थान- पाग ४, १, ८६; ४,
६२; -नाः निसू ९, ९ : २६१.
औदस्थान- पा ४, १, ८६;
४, ६२.
उद्-हरण- -गान् काश्री ९, २,
२२; द्राश्री ११, ३, १७; लाश्री ४,
३, १८; -णौ वाधूश्री ४, ७४ :
११.
उद्-हार- पा ६, ३, ६०.

उद्-हत्- -हत्तम् कौस् ६०, २५.
उद्हत्-संप्रैप-वर्जम् कौस्
६०, १६.
उदा(द-आ)हार- -रम् कागृ
२५, १; -रस्य कौस् ७५, १३.
उदौ(द-ओ)दन- पा ६, ३, ६०;
-नः कौस् १३८, २.
१उद्क- पाउ २, ३९; पाग ४, ३,
५४; ५, १, ६६; २, ९७; १००;
-कम् आश्री १, ३, ३०××;
शाश्री; आपध २, १, १४^६; या
२, २४^२; १०, ४^२; -कस्य
काश्री २१, ४, १९; आमिण्; पा
६, ३, ५७; -कात् काश्री २०, २,
१३; कौस् ६२६, ४; या १०,
१६^२; -कानि आपण् २०, ४;
कागृ ६३, ६; ६६, ८; भागृ २,
८ : ७; हिगृ २, ८, ५; या १०,
३४; ११, २५; ३६; ५०; -काय
आमिण् ३, २, ३ : ११; ६-७ :
१३; कागृ २१, १ १; -के
आश्री ११, २, ६; शाश्री १५,
१३, १५; १६, १८, १९; आपश्री;
या ६, २७; १०, १२; पा ६, २, ९६;
-केन आश्री २, ६, १४; शाश्री;
या २, २२; ६, २६; ३६; ७, २४;
१०, ३१; १२, ९; -केषु काश्री
२४, ६, २२; या १०, ४४; १२,
३२; -कैः आश्री ६, १२, ७;
जैश्रीका ४९; या ६, ३०.
उद्कानी- -नी कागृ २०, २.
औदक- -कः गोगृ २, २,
१४; द्रागृ १, ३, २८; -कानि
अप ५३, २, ४.

औदकी- -कीम् लाश्री
९, २, १०; ११.
उद्क-करण- -णाय जैगृ २,
५ : ३.
उद्क-कर्मन्- -र्म पागृ ३, १०,
१; ७.
उद्ककर्म-स्वधा-पितृ-
संयुक्त- -क्तभ्यः वाध २, ७.
उद्क-कलश- -शम् विध ६७,
२५.
उद्क-कृच्छ- -च्छः विध ४६,
१४.
उद्क-कृत्य- -त्यम् आपश्री १५,
२, ९; भाश्री ११, २, १६; वैश्री
१३, ३ : २; हिश्री २४, १, १३.
उद्क-क्रिया- -या वौपि ३, ४,
२२; ६, ७; कौस् ८, ६; वाध ४,
९; शंघ ३४३; ३६७; विध
२२, २८; गोध १४, ३८; सुध
१६; -याम् वाध ४, १२.
उद्कक्रिया-मन्त्र- -न्त्रेण
गौपि १, ४, २१.
उद्क-गाह- पा ६, ३, ६०.
उद्क-ग्रहण- -णम् शांण ६,
२, ४.
उद्क-कृ पाग १, ४, ७४.
उद्क-चर- -रः या ४, १६; -राः
शाश्री १६, २, २३.
उद्क-चोद(न >)ना- -नायाम्
कौस् ७, ९.
उद्क-ज- -जानि अप ६२, ३,
५; -जे या १३, ५.
उद्क-तर- -रम् मागृ २, ११, ६.
उद्क-तर्पण- -णम् शंघ ११६:

a) अर्थः व्यु. च ? । विप. (नदी) । पूष. सप्त. यक्ष्म- = प्राह- इति विव. (तु. संस्कृतः टि.) । b) वैप २ द्र. ।
c) वैप १ परि. द्र. । d) विप. । बस. । e) नाप. । उप. करणे ह्युद् प्र. । f) विप. > नाप. । उत्स. ।
g) सपा. हिघ २, १, १३ उद्क-शेषम् इति पाठे. । h) डीष् प्र. आनुगागमश्च उरु. (पा ४, १, ४९) । i) तस्येदमाद्यर्थे
अण् प्र. । j) = कर्म-विशेष- । k) = व्रत-विशेष- । तृष. । l) पाठे. वैप २, ३३. उद्केश्वरः टि. द्र. ।

७५; ११८; १२०; गौध २६, ११;
 सुध ३६.
 उदक-दधि-मधु-पल्पूलन-
 -नानि कौसू २२, ८.
 उदक-दान- -तारः गौपि १, ७,
 ९१.
 उदक-दान- -नम् वैगृ ५, १० :
 ६; शंघ ३६१; गौध ५, ५; १४,
 ३२; या ६, ३३.
 उदकदान-मन्त्र- -न्त्रेण
 गौपि १, ४, २०.
 उदक-धारा- -रया आगृ २, ८,
 १२; ९, ८; ४, ६, १४; कौसू २३.
 १३; ५१, १३; -राम् आश्रौ २,
 २, १४; आपश्रौ ४, १४, ३; ६,
 ५, ५; वाश्रौ १, ५, २, १६; ६, १,
 ३०; वैश्रौ ७, १२ : ७; वैताश्रौ
 ७, ५; आगृ ४, ६, ७; कौसू ५८,
 १४; अप ४५, १, ११.
 उदक-नामन्- -म या २, २२;
 २५; ५, १९; ७, २४; ९, २६;
 १२, २६; -मानि निघ १, १२;
 या २, २४.
 उदक-निर्वपण- -णम् विध
 १९, ७.
 उदक-पाणि- -णिभ्याम् वाध
 १२, १५.
 उदक-पात्र- -त्रम् विध ७३,
 २४; -त्राणि वैगृ ६७ : २; -त्रे
 वैगृ १, २० : १५; २, १५ : २.
 उदकपात्रा (त्र-अ) लङ्कारोपयुक्त-
 स्त्रीवासस्- -ससाम् शंघ २७८.
 उदक-पूर्ण- -र्णम् अप २०, ३, ४.
 उदक-पूर्व, वा^१- -र्वम् गोगृ ४,
 २, ३३; वाध १, ३०; -र्वाणि
 आपध २, ९, ८; हिध २, १,

१२३; -वांम् आगृ १, ६, १.
 उदक-प्रादुर्भाव-गमन- -नेषु
 अप ७२, ३, २.
 उदक-विन्दु- पा ६, ३, ६०.
 उदक-भस्मन्- -स्मभिः सुध
 ३३; -स्मभ्याम् सुधप ८७ :
 १४.
 उदक-भार- पा ६, ३, ६०.
 उदक-मग्न- -मः विध ५१, २५;
 सुधप ८६ : ९.
 उदक-मान- -ने ऋत ४, ६, ९.
 उदक-मन्थ-पा ६, ३, ६०.
 उदक-मिश्र- -श्राणि आमिगृ ३,
 ४, ४ : २६; -श्रान् बौपि ३,
 ४, २१.
 उदक-योग-क्षेम-कृतान्न- -क्षेषु
 गौध २८, ४७.
 उदक-राजि- -जिम् बौश्रौ ३,
 २९ : १९; -ज्या आश्रौ ३,
 १०, १५.
 उदक-ल- पा ५, २, ९७.
 उदक-लेप- -पम् वाश्रौ १, २,
 ३, १३१.
 उदक-वज्र- पा ६, ३, ६०.
 उदक-वत्- -वन्तम् या १०,
 १३.
 उदकवती- -०ति या ११,
 ३७; -त्यौ या ५, २.
 उदक-वास- -सम् सुध ५०;
 -सात् वाध २९, ६.
 उदक-वाहक- -कम् अप ६१,
 १, १३; १४.
 उदक-वीवध- पा ६, ३, ६०.
 उदक-शुद्ध- (> औदकशौद्धि-
 पा.) उद-शुद्ध टि. द्र.
 उदक-शेष- -षम् शाश्रौ ४, ५,

३; आमिगृ २, ५, २ : १२; ८ :
 ३४; बौगृ २, ७, २४; ३, ५, १९;
 ६, ६; ४, १२, ६; हिध २, १, १३.
 उदक-सक्तु- पा ६, ३, ६०;
 -क्तुनाम् विध ४६, १४.
 उदकसक्तु-भक्ष- -क्षः जैगृ
 २, ८ : २३; बौध ३, ९, १७.
 उदक-सपिण्ड- -ण्डानाम्
 आमिगृ ३, ७, ४ : १.
 उदक-समीप- -पे आमिगृ २,
 ६, ८ : २०.
 उदक-साधु^१- -धवः निस् ४,
 ३ : ६; गोगृ ३, २, २३.
 उदक-सिद्ध- -द्धानि शंघ ४४८.
 उदक-सेविन्- -वी निस् १, ११ :
 १८.
 उदक-स्थान- -नम् वागृ ७, १५;
 -नानि काश्रौ २५, ३, ३.
 उदक-स्पर्शन- -नम् आपध १,
 १०, ५.
 उदक-स्पर्शि (त >) ता- -ता
 काध २८० : ३.
 उदक-हार- पा ६, ३, ६०.
 उदका (क-आ) चमन- -नम्
 वाश्रौ १, ४, ३, ४२.
 उदका(क-अ)अलि, ली- -लिम्
 शाश्रौ ४, १५, ४; आपश्रौ; -लीः
 वागृ १५, १०; ११; -लीन्
 आपश्रौ १, ८, १०; ९, १४;
 भाश्रौ.
 उदकाअलि-दान- -नात् हिगृ
 २, १४, १०; १५, ११; १४;
 -नेन आमिगृ ३, १, ३ : २१; २,
 ३ : ११; ६-७ : १३.
 उदकाअलि-प्रभृति- -ति
 माश्रौ १, ७, ६, ४४.

a) विप. । बस. । b) पाभे. पृ ६५४ पृ द्र. । c) विप. । बस. उप. = साधक- । d) सपा.

*कस्प° <> °कोपस्प° इति पाभे. ।

उदका(क-आ)दि- -दि बौध
१, ५, ४६^६; -दीनि गौध २०,
२; १५.

उदका(क-अ)धिष्ठान-प्रभृति-
-ति काश्रौ १९, ५, १२.

उदका(क-आ)नयन- -नम्
हिध २, २, १४.

उदका(क-अ)न्त- -न्तम्
आपश्रौ ८, ७, २१××; बौध्रौ;
-न्तस्य बौध्रौ २१, ३ : ७; २३,
१६:२१; पागृ ३, १०, १०; -न्ते
आश्रौ ६, १३, ८××; आपश्रौ.

उदका(क-अ)न्तरः(ः)विध ३०,
१६.

उदका(क-अ)न्तर्धान- -नात्
लाश्रौ १०, १९, १५.

उदका(क-आ)प्लुत- -तम् वैगृ
५, ७ : ९.

उदका(क-अ)भ्यवाय- -यम्
काश्रौ ५, २, २२.

उदका(क-अ)भ्यवायिन्- -यी
आपध १, २७, ११; बौध २,
१, ४२; हिध १, ७, ३६^६.

उदका(क-अ)र्का(क-अ)वलो-
कन^८- -नम् वाध २३, ३२^६.

उदका(क-अ)र्थ- -र्थः शाश्रौ ५,
६, ९; काश्रौ ८, १, ८; काठश्रौ ८९;

-र्थम् आश्रौ ५, ११, ४; आमिगृ
३, ११, २ : ४; भागृ १, २५ :

१४; -र्थान् आपश्रौ ८, २२, ६;
माश्रौ; -र्थे माश्रौ ५, २, ७, ९.

उदका(क-अ)लाडु- -बू कौसू
३९, २०.

उदकिल- पा ५, २, १००.

उदके-चर- -राः आश्रौ १०,
७, ८^६.

उदके(क-इ)न्धन^९- -नः या ७,
२३.

उदको(क-उ)स्मेचन- -नम् गोगृ
३, ३, १२.

उदको(क-उ)न्मील^१- -लः कौसू
१२१, १; -ले कौसू ९३, २८.

उदको(क-उ)पशमन^६- -नः या
७, २३.

उदको(क-उ)पस्पर्शन- -नम्
निसू ४, ३ : ८; आपगृ; आपध

१, ८, २९^६; हिध १, ३, ३४^१;
-नात् गौध १४, २९^१; २४, ४;

-ने हिपि ४ : ६.

उदकोपस्पर्शन-विधि- -धिः
आपध २, २२, १४; हिध २, ५,
१४४.

उदको(क-उ)पस्पशिन्- -शीं
निसू ४, ३ : ३; वाध ९, ९;
२४, ५; गौध २२, ५.

उदको(क-ओ)दन- पा ६, ३, ६०.

उदक्य, कया^६- पा ४, ३, ५४;
५, १, ६६; -क्या काश्रौ २५,
११, १४; -क्याः द्राश्रौ ५, २,

२१; लाश्रौ २, ६, १४; वाध ५,
१०; -क्यान् आश्रौ १२, ८, २१;

कौसू २२, १०; -क्याम् वैगृ ७,
३:११; विध ७१, ५८; -क्यायाः
बौपि २, ८, ७.

उदक्या-गमन- -ने गौध
२३, ३५.

उदक्या-ग्रहण- -णे शंध
३९४.

उदक्या(क्या-आ)दि-
-दिभिः आमिगृ २, ६, ७ : १६.

उदक्याद्य(दि-अ)वलीढ- -हे
आमिगृ २, ७, ८ : २०.

उदक्या(क्या-अ)शुच्या-
(चि-आ)दि-संसर्ग- -र्गे वैगृ
३, ६ : ५.

उदक्या-संस्पृष्ट- -ष्टम् विध
५१, १७.

उदक्या-स्पृष्ट- -ष्टम् वैध २,
१५, ७.

†उदन्^१- पा ६, १, ६३; -दनि
या १०, १२^६; -द्रः बौध्रौ ८,
१० : २; १०, ५९ : १०; १३,
४० : १; आमिगृ २, ५ १० :

३६; ११ : २०; अप्राय ६, २^१.

√उदन्य^३ पा ७, ४, ३४.

†उदन्यु- -न्यवः आश्रौ २,
१३, ७; -न्यवे या ११, १५^६;

-न्युः या ११, १५.

†उद(न्य>)न्या^१- -न्याः
बौध्रौ १७, ४१ : १०; हिश्रौ ६,
७, ८; आपमं १, ५, ५; आमिगृ १,
५, ३ : १८; २, १, २ : १३; बौगृ

१, ४, ३१; भागृ १, १६ : १०;
वागृ १, २३; हिगृ १, २०, ५;

२९, २; २, १, ३; जैगृ १, २१:२५.

†उदन्य-ज^१- -जा या १३,
५^६.

उदन्-वत्^१- -वता बौध्रौ १, ३
३४; २०, ४ : ३५^३; ३६; भाश्रौ

a) सपा. °कादि, उपलेपनम् <> °कार्कावलोकनम् इति पाभे. । b) °पायी इति पाठः? यनि.

शोधः (तु. आपध.) । c) समाहारे द्वस. > षस. । d) पाभे. वैप २, ३खं. उदकेचराः टि. द्र. e) विप. । बस. ।

f) षस. उप. भाप. । g) विप. । उस. उप. कर्तरि व्युः प्र. । h) °स उ° इत्यस्य स्थाने सप्र. हिध १, २, ११७

°सोद° इति पाभे. । i) पाभे. पृ ६५४ । द्र. । j) पूर्वेण संधिरार्षः । k) विप., नाप. (रजस्रलान्) । l) वैप१

द्र. । m) या ११, १५ परामृष्टः द्र. ।

१, १४, ९; -वान् पा ८, २, १३.

उदन्वली- -ती अत्र १८, २१; -तीः भाग २, १३ : १४; हिग २, १२, १०; कौसू ८०, ३५; -तीम् भाग २, ३० : ५; हिग १, १६, १२.

उदद्- पाठ २, १३.

उद्दिन्- -द्विणम् वाश्री २, १, ५, १; वैश्री १८, १५ : १०; हिग्री ११, ६, २४; या १०, १३१; -द्विण वीश्री २, ५ : १६.

उन्द(त >)ती- -तीः काश्री २५, ११, २३; आपश्री.

उन्दन-> न-प्रभृति- -ति वैश्री ९, १२ : ५; १४; गोश्री २, ९, १९; द्राग २, ३, २८.

उन्दना(न-आ)दि- -दि आपश्री ८, ८, १९; १९, ९; २१, १; वैश्री १२, ७ : १६; पाग २, १, १४.

उन्दी(य >)या- -याः हिग १, ९, ११.

उन्न- पा ८, २, ५६.

उन्नोद्यन्- पा ६, ४, २९; -द्यन् शुप्रा ४, ५६; तैप्रा १०, १४.

१उद्- √उद्, उद् द्र.

२उद्- या १, ३; ऋप्रा १५, १७; शुप्रा ६, २४; पाग १, ४, ५८; उद्ऽउद् पा ८, १, ६; उद्ः पा ६, ४, १३९; अत ५, ७, ६१.

उद्-अथा-पर- -रः तैप्रा ९, २४.

उद्-अवग्रह- -हः शुप्रा १, ११८.

उद्-आद्य(दि-अ)न्त- -न्तः शुप्रा

१, १२०.

उद्/अक्, उदाकुः^६ आपश्री १, १६, ८; भाश्री १, १८, ६^६; हिश्री १, ४, ५४.

१उद्क- √उद्, उद् द्र.

२उद्क^१- पाग ४, १, ९६; -कम् निस् १, ५ : २०.

औदकि- पा. ४, १, ९६; पाग ५, ३, ११६.

औदकीय- पा ५, ३, ११६.

उद्-अग्र-फल^१- > °लिन्- -लिनः वैध १, ८, १.

१उद्ङ्क^१- पाग २, ४, ६९; ४, १, ९६.

औदङ्कि- पा ४, १, ९६; पाग ५, ३, ११६.

औदङ्कीय- पा ५, ३, ११६.

उद्ङ्क्य^१- -ङ्क्याय कौसू ५६, १३.

१उद् (उद्/अ) च्, उच्, उदचन्तु आपमं १, १, ७^१.

२उद्-अङ्क^०- -ङ्कः पा, पावा ३, ३, १२३.

उदङ्की- -ङ्कीम् माश्री १, १, २, २; ५; ३३; -ङ्क्याम् माश्री १, १, २, ३.

उद(द्-अ)च्, उच्- -दक् आश्री १, ३, २२××; शाश्री; पा ४, २, ७४; -दक्षु जैश्रीका १०८; -दङ्क^१ आश्री २, ४, ५××; शाश्री ४, ४, १२; काश्री ४, १, १३; ५, ४, १०; -दङ्कः शाश्री ६, १३, २××; काश्री; या १३, ३^१; -ङ्कम् शाश्री ४, १७, १०××;

काश्री; आपश्री १८, १४, १३^१; -दङ्कि काश्री १, ७, २४^१; ६, २, १८; आपश्री १२, १, १५; बौश्री ६, २२ : १६××; हिश्री ७, ७, १७; ८, १, २७; कौसू ६, २०; -दङ्गी शाश्री १७, १०, ५; आपश्री ११, ७, ९; १५, ८, २; काठश्री १३; बौश्री ५, ८ : १४; ३४; ९ : ८; ६, २५ : १७; ९, ७ : १९; भाश्री ११, ८, ४; वैश्री १३, ९ : १; १४, ६ : १०; हिश्री २४, ३, ३; -दीचः^१ शाश्री २, ८, ८; काश्री; आपश्री ११, १०, ८^१; हिग ३, ४; -दीचाम्^१ शंघ २०९; पा ३, ४, १९; ४, १, १३०; १५३; १५७; ६, ३, ३२; ७, ३, ४६; पावा ४, १, १५३^१; -दीचि^१ या ७, २३.

उदीची- -ची शाश्री १६, ९, २१; काश्री; -चीः शाश्री ४, ११, ६; ८, ९, ५; आपश्री; -चीभिः बौश्री १०, ३८ : २४; ४३ : २; ४६ : ३०; आपश्री २०, ११; हिग ६, ५१; -चीम् शाश्री २, ९, ६; ६, २, ४^१; काश्री; -च्यः बौश्री ८, ५ : १७; हिपि १ : ४; गोश्री ४, ७, ३; -च्य्या शाश्री ४, ११, ४; बौश्री १०, ३६ : ६; ३८ : २३; ४३ : २; -च्य्याः काश्री २५, ६, २; कौसू ४९, ८; ऋश्री ९, ३; १५, ४; ५; -च्य्याम् आश्री १, ११, ७^१;

a) वैप १ द्र. । b) = जलचर-विशेष- । c) = उपसर्ग- वा स्वार्थ- वा उदात्त- वा । व्यु. ? । d) = उ (अव्य.) । e) द्रस. > बस. । f) बस. > द्रस. । g) लिटि प्रपु ३ (तु. ०.) । h) णुः इति संस्कृतः टि. । i) व्यप. । व्यु. ? । j) = [द्रापराख्य-] छन्दो-विशेष- । k) °तकि-, °तकी- इति पाका. ? । l) विप. । बस. > बस. । m) अर्थः व्यु. ? । = रक्षो-विशेष- इति MW. । n) पामे. वैप १, ८९७ Q द्र. । o) = कुतुप- । p) क्वचित् न. द्वि१ सद् नलो गऽभावे वा. क्वि. (तु. वैप १ ? सम्यञ्चौ टि.) । q) पामे. वैप १, ९८९ e द्र. । r) उदक् इति चौसं. Web च । पामे. पृ ६५९ b द्र. । s) पा ६, ४, १३९ । t) उदङ्कः इति पाठः ? यनि. शोधः (तु. सा. [तृ ३९४])

शांश्रौ; -कच्यै बौश्रौ १८, ५२ :
२; बौश्र २, ८, ३६; भाश्र ३,
१३ : १९; अश्र १२, ३.

उदीची-स्थ- -स्थान्

अश्र ३, २६.

उदक्-कूल, ला^१- -लाम् वाश्रौ १,
६, ४, ८; -लेषु गोश्र ४, ५, १५.

उदक्-छदिस- -दीषि वैश्रौ १४,
११ : ६.

उदक्-तान् कौश्र ५, ८, ५१.

उदक्-तूल, ला^१- -लानि माश्रौ
२, २, ३, २४; -लाम् माश्रौ १,
५, ३, १; ७, १, ४०; -लेषु जैश्र
२, ८ : ८.

उदक्-पत्र^१- -त्रम् कौस् ५३, १९
उदक्-प(द् >)दी^१- -दीम् गोश्र
३, १०, २४.

उदक्-पाद^१- -दम् शांश्रौ ४, १७,
११^२; काश्रौ ६, ५, १५; माश्रौ १,
८, ३, ३०; आश्र १, ११, १०.

उदक्-पा(द् >)दी^१- -दीम् द्राश्र
३, ४, ६; कौस् ४४, १३.

उदक्-पाय^१- -यम् अप्राश्र २, ५.

उदक्-पा(श >)शा^१- -शाम्
माश्रौ २, १, २, ८.

उदक्-प्रक्रम- -मे आपश्रौ ७,
४, १.

उदक्-प्रत्यग-दक्षिणा^१-
-णस्याः शैश्रीका ११०.

उदक्-प्रवण^१- -णम् वैश्रौ १२,
४ : २; वौपि १, ४ : ५; गोश्र
३, ९, १२; द्राश्र ३, ३, २०; -णे
काश्रौ २२, ३, १६; माश्रौ ५,

२, १२, १२.

उदक्-प्रवण^१- -णे कौस् ७२, १.

उदक्-प्राक्-तूल^१- -लान् माश्र
१, १०, ३; २, ७, ६.

उदक्-प्राक्-प्रवण^१- -णम्
आश्रिण २, ३, १ : ४; ५.

उदक्-प्राग्-अपर^१- -रम् वैश्र ५,
१३ : ११.

उदक्-प्लव- -वम् शंघ २०९.

उदक्-शंसन^१- -नम् माश्रौ १,
२, २, ६.

उदक्-शस (:) वौश्रौ ६, २६ : ९.

उदक्-शिरस्^१- -रसम् गोश्र २,
८, २; १०; द्राश्र २, ३, २; ७;
-राः काश्रौ २०, १, १७; आश्रिण
१, ७, ३ : ७; २, ६, ७ : ३६;
भाश्र २, १८ : १५.

उदक्-शी(र्ण >)र्णी^१- -र्णीम्
माश्रौ १, २, २, २७.

उदक्-शुल्ब^१- -ल्वम् आपश्रौ
९, २, २; माश्रौ ९, २, २१; हिश्रौ
१५, १, ४०.

उदक्-संस्थ, स्था^१- -स्थम् द्राश्रौ
५, २, १३; ३, २३; २७; लाश्रौ २,
६, ७; ७, २०; २४; निस् १,
११ : २३; आश्र १, ३, १; -स्थानि
आश्रौ ५, ३, २६^१; कौश्र १, ३,
१०; शांश्र १, ८, ५; -स्थानि
आश्र १, १०, १७; १८, ६;

-स्थाम् कौश्र १, ३, २; शांश्र १,
७, ६; -स्थैः वाश्र १, ९.
उदक्-संस्थ-ता- -ताथै वौश्रौ
६, २९ : १५^१; ७, ८ : ३०;

१० : १८; ११ : ६; १३; २१.

उदक्-संचारिन्- -री वौश्रौ १८,
५० : २.

उदक्-समास^१- -सम् द्राश्रौ ५,
२, ९; लाश्रौ २, ६, ४; निस् १,
११ : १९.

उदग्-अग्र^१- > ंग्रिक्^३-
-कम् वैश्र १, ३ : ३.

उदग्-अग्र, प्रा^१- -ग्रः कप्र २,
५, २०; -ग्रम् शांश्रौ १, ६, ८;
काश्रौ; -प्राः आपश्रौ १, १४,
१५; भाश्रौ; -प्राणि आश्रौ १,
११, ४; काश्रौ ८, ४, १७; -प्रान्
काश्रौ ४, १३, १५; २५, ८, ११;

माश्रौ; -प्राभिः निस् १, ११ :
२१; २५; -प्राभ्याम् आपश्रौ १,
११, ९; २, ६, ७; भाश्रौ; -ग्राम्
आपश्रौ ७, ३, १४; -प्रे काश्रौ
१, ३, १६; आपश्रौ २, ९, १३;
वैश्रौ ५, ७ : ४; आश्र १, २४,
८^१; गांश्र १, ८, २१; वैश्र १, ११ :
८; द्राश्र १, २, १४; -प्रेण वौश्रौ
१, ६ : ३१; -प्रेषु शांश्रौ २, ८,
२२; काठश्रौ; -प्रेः आपश्रौ १,
१४, १४; ६, ३, ५; भाश्रौ; -प्रौ
वाश्रौ १, २, ३, १६.

उदग्-अग्र(क >)का^१- -काम्
कप्र १, ८, ३.

उदग्-अङ्गुलि^१- -लिम् आश्रौ १,
७, ३.

उदग्-अन्त^१- -न्तम् वैश्रौ १,
५ : २; वैश्र १, ११ : ४; १४ :
७; ४, ३ : १०; कप्र २, ८, २१;

a) विप. । बस. उप. = अग्र- । b) विप. । बस. । c) विप. (गर्भ-) । बस. उप. स्वार्थे यत् प्र. ।

d) द्वस. > मलो. कस. । e) वैप २, ३खं द्र. । f) विप. । द्वस. > बस. । g) विप. । तद्धितार्थे द्विस. ।

h) विप. । बस. उप. < √शंस [छेदने] । i) विप. । बस. उप. भाप. = समाप्ति- । j) °क° इति पाठः ? यनि.

शोधः । k) °स्था° इति पाठः ? यनि. शोधः (तु. उत्तराणि स्थलानि, C., शोधसूची च) । l) सस. । m) विप. ।

मत्वर्थीयषु ठन् प्र. ।

-न्तान् वैश्रौ १४, १२ : १०.
 उद्ग-अपवर्ग,र्गा^१ - -र्गम् आपध
 २, ३, २०; हिध २, १, ५०; -र्गाः
 वाश्रौ ३, २, ६, ११; वैश्रौ १४,
 ६ : ९; -र्गाणि आपश्रौ २४,
 २, १५^२; बौश्रौ २, २ : १७^३;
 आम्रिगृ १, २, २ : ७; हिगृ २,
 १८, १०; (-वर्गाणि) वाश्रौ १, १,
 १, ७७^४; -र्गान् आपश्रौ १४,
 ५, १९; वैश्रौ १५, ३३ : ८;
 हिश्रौ ९, ८, ११.
 उद्ग-अयन- -नम् भागृ १,
 ११ : १७; या १४, ९; -नस्य
 शाश्रौ ६, १, १८; वाश्रौ १, ६,
 १, १; -नान् या १४, ९; -ने
 आश्रौ ८, १४, ३; आपश्रौ.
 उद्गयन-दक्षिणायन- -नयोः
 निस् २, ५ : १८; बौध २, २,
 ७६.
 उद्गयन-पूर्वपक्ष-पुण्याह-
 -हेषु द्रागृ १, १, २.
 उद्गयनपूर्वपक्षपुण्याह-
 संनिपात- -ते लाश्रौ ८, १, १.
 उद्गयन-पूर्वपक्षाह-
 पुण्याह- -हेषु आपगृ १, २; मीस्
 ६, ८, २५.
 उद्गयना(न-आ)पूर्वमाण-
 -णे आम्रिगृ २, ४, ६ : २.
 उद्गयना (न-आ) पूर्वमाण-
 पक्ष^५ - -क्षे आम्रिगृ १, २, ३ :
 १.
 उद्ग-अर्थ- -र्थस्य अप १,
 ३५, २.
 उद्ग-अर्थ- -र्थम् काश्रु ७, ३८.
 उद्ग-अर्वाञ्च् - -वाक्

अप्राय ६, ६.
 उद्ग-आयत, ता- -तम् आपश्रौ
 ११, ९, ७; वैश्रौ १४, १० : ५;
 आपश्रु ७, १; -तान् हिश्रौ ७,
 ७, ३२; ८, ७, ६७; -ताम् आगृ
 १, ३, १.
 उद्ग-आया(म>)मा^६ - -माः
 आपश्रु ७, ६; हिश्रु २, ५४.
 उद्ग-आवृत्त- -त्तः आपश्रौ
 २४, ३, ११; भाश्रौ ४, ३, ६;
 जैश्रौ ११ : १; १४ : १; बौगृ
 १, २, १७; -त्ते जैश्रौ ३ : ६१.
 उद्ग-आशसन^७ - -नम् वाश्रौ १,
 २, ४, ४०.
 उद्ग-आसादन- -नम् कप्र ३,
 ८, २.
 उद्ग-ई (पा >) व^८ - -वम्
 आपश्रौ १, १७, ५; १०, २४, ४;
 २९, ९; बौश्रौ ६, १६ : १५;
 भाश्रौ १०, २०, ११; वैश्रौ ४,
 ४ : १; १२, २१ : ४; हिश्रौ १,
 ५, ७; ७, ३, २३.
 उद्ग-ग(त>)ता- -तायाः कप्र
 १, ६, १०.
 उद्ग-गति- -तौ वेज्यो ८.
 उद्ग-ग्री (वा >) व^९ - -वम्
 शाश्रौ ४, १६, २; कौगृ ५, ८, २.
 उद्ग-दक्षिणा-मुख^{१०} - -खः बौध
 १, ५, ६८.
 उद्ग-द(गड>)ण्डा^{११} - -ण्डया
 आपश्रौ ६, ११, ५; वाश्रौ १,
 ५, २, ४५; हिश्रौ ३, ७, ९२;
 -ण्डाम् भाश्रौ १, ६, १, ४३.
 उद्ग-द (शा >) श^{१२} - -शम्
 आपश्रौ १०, २४, ७; भाश्रौ १,

५, ५, ७; द्राश्रौ ३, २, २७; लाश्रौ
 १, १०, २०; कागृ ६०, ६; मागृ
 २, ७, २; -शानि आगृ ४, ४,
 १०; -शेन बौश्रौ ९, १३ : १२;
 वैश्रौ १३, १५ : १२; गौपि १,
 १, १४; जैगृ १, १९ : ४.
 उद्ग-द्विपद^{१३} - -दे आपश्रौ २,
 १, ६.
 उद्ग-द्वार, रा^{१४} - -रम् काश्रौ ५,
 ८, २१; हिश्रौ ७, १, २९; शागृ
 ६, २, ६; गोगृ ४, ७, १५; द्रागृ ४,
 २, १३; -राः भाश्रौ ६, १, ८,
 १०; -राणि आम्रिगृ २, ६, ३ :
 ९१; अप १, ३०, ३; बौध २,
 ५, १९.
 उद्ग-भू(मि>)म- पावा ५, ४,
 ७५.
 उद्ग-वंश- -शान् वैश्रौ १४,
 ११ : ६.
 उद्ग-वंश, रा^{१५} - -शम् काश्रौ
 ४, ७, ९; ८, ६, ३; भाश्रौ २, २,
 ३, २२; वैश्रौ १४, १० : ५;
 -शायाम् काश्रौ १२, १, २१.
 उद्ग-वंश-शाला- -लायाम्
 भाश्रौ १, ५, १, १३.
 उद्ग-वदन^{१६} - -नाः जैश्रौका
 १९९.
 उद्ग-वर्जम् काश्रौ ७, १, १८.
 उद्ग-न्याय^{१७} - -यानि भाश्रौ १,
 १, ११; हिश्रौ १, १, ५३^{१८}.
 उद्ग-प्राञ्च्^{१९} - -प्राङ् काश्रौ १,
 ९, १८.
 उद्ग-मुख^{२०} - -खः आश्रौ २, ४,
 १७; शाश्रौ; -खम् बौश्रौ ६, २ :
 २७; भाश्रौ २, १, ४, ३६;

a) विप. । बस. । b) सप्र. उद्गन्त्यायानि <> उद्गि [उ ६५७] इति पाठे. । c) सस. ।

d) विप. । बस. उप. < आ/शस् [हिंवायाम्] । e) विर. । द्वस. > बस. । f) विप. । बस. उप.

= समाप्ति- । g) = ईशान-कोण- । बस. (पा २, २, २६) ।

वैश्रौ १०, १० : १२; १३ : ४;
 आमिष्ट ३, ५, १७; ११, २ : ४;
 वागृ २, १; वैगृ २, १२ : १९;
 ३, ५ : ५; २२ : १२; -खाः
 बौश्रौ ४, ४ : २०; द्राश्रौ ४, २,
 ३; लाश्रौ २, २, १२; आगृ २,
 ३, १२; शांगृ ६, ३, २; -खान्
 वौश्रौ १८, ८ : १६; आगृ ४, ७,
 २; आमिष्ट ३, ३, २ : ९; ११,
 ३ : ८; ४ : १५; बौगृ २, ११,
 १५; १६; वैगृ १, ६ : ४; ४,
 ३ : १०; गोगृ ४, २, ३१; गौपि
 २, २, १४; अगृ ४, २, ३;
 बौध २, ८, ६; विध २१, १; ७३,
 ३; -खेषु विध ७३, १४; २५;
 -खैः जैश्रौका १३३; -खौ बौश्रौ
 ७, ११ : १९; वैश्रौ ६५, २४ :
 ८; लाश्रौ ९, ९, ११; हिगृ १,
 २२, ९.

उदङ्मुखी- -खी वैश्रौ ५,
 ३ : ७; आमिष्ट २, ४, ९ : ५;
 -खीम् माश्रौ १.६, १, १४; वैश्रौ
 ५, ३ : २; अगृ ६, १, ५; अशां
 १५, २.

उदीचीन^१- -नम् आपश्रौ १६,
 २७, ११××; वैश्रौ; -ना काश्रौसं
 ३५ : ८; -नान् आश्रौ ३, ३,
 १; शाश्रौ ५, १७, ३; वैश्रौ १०,
 १२ : ६; १७, १२ : २; हिश्रौ
 ४, ३, ५२; -नानि माश्रौ १, २,
 ५, २३; -नैः कौसू ७१, १८;
 ८६, २१.

उदीचीन-कु(म्ब>)म्बा^२-
 -म्बया बौश्रौ ४, २ : ६; ८;
 -म्बाम् आपश्रौ १, २१, ३;
 बौश्रौ १, ७ : ४; भाश्रौ १, २३,

२; ७, ३, १; वैश्रौ ४, ८ : ३;
 हिश्रौ १, ५, ७८; ४, १, ४२; ४३;
 आमिष्ट १, १, १ : ३५; भागृ १,
 ३ : ११; हिगृ १, २, २.

उदीचीन-ग्री(वा>)व^३-
 -वेण शाश्रौ १७, ५, ९.

उदीचीन-ङ(ण्ड>)ण्डा^४-
 -ण्डया बौश्रौ २०, २० : २०;
 भाश्रौ ६, १३, ८.

उदीचीन-ङ(शा>)शा^५-
 -शाम् आपश्रौ १२, १२, १२; १६,
 ११; २९, ९; १३, १०, १०; १९,
 ३, ७; बौश्रौ ७, ६ : २०; ८, १ :
 २३; वैश्रौ ११, ५ : ६; १७, ८ :
 १; हिश्रौ ८, ३, ४२; जैश्रौ ९ :
 १६; जैश्रौका १०१; -शेन बौश्रौ
 ११, ३ : १२; १७, ३४ : १;
 वैश्रौ १७, ९ : ६; बौपि ३, २, ३;
 ४, १०; -शैः बौश्रौ ११, २ :
 १६.

उदीचीन-प(द्>)दी^६-
 -दीम् आमिष्ट २, ५, ८ : ५; बौगृ
 २, ७, ८.

उदीचीन-पाद^७- -दम् आपश्रौ
 ७, १६, ५; बौश्रौ ४, ६ : ३३;
 २०, २८ : १४; १६; भाश्रौ ७,
 १३, २; वाश्रौ १, ६, ५, २; वैश्रौ
 १०, १३ : १०; हिश्रौ ४, ३,
 ५२.

उदीचीन-प्रनिपेव(ण>)-
 णा^८- -णाः बौगृ १, २, २; -णाम्
 बौश्रौ १७, ३९ : २६; आमिष्ट
 १, ३, २ : ११^{१०}; बौगृ १, ३, २०.

उदीचीन-प्रवण, णा^९- -णम्
 हिश्रौ १०, १, २२; -णाम् वैश्रौ
 ५, १ : ५; -णे आमिष्ट १, १, १:

८; २, २ : १४; भागृ १, १ :
 १३; हिगृ १, १, ९; २, १९, ३.

उदीचीन-प्राचीन-प्रवण^{१०}-
 -णम् भाश्रौ १०, १३, १.

उदीचीन-वंश, शा^{११}- -शम्
 आपश्रौ ५, ४, १; हिश्रौ ७, ७, २;
 -शा हिश्रौ ३, २, ३४; -शे
 वाधृश्रौ ३, ६९ : २९.

उदीचीन-शिरस्^{१२}- -रस्म्
 बौश्रौ २०, २८ : १५; -राः
 बौश्रौ १७, ४० : ३; आमिष्ट १,
 ३, २ : ११.

उदीचीन-सं(स्था>)स्थ-
 ता- -ताम् बौश्रौ २१, १५ :
 २०; २२; १८ : २१; २३.

उदीचीना(न-अ)ग्र, ग्रा^{१३}-
 -ग्रम् शाश्रौ १७, १०, ४; ६;
 बौश्रौ १, २ : १७; ११ : ५;
 वैश्रौ ३, ७ : ३; -ग्राम्याम् बौश्रौ
 १, ६ : १; १२ : ४५; बौगृ १,
 ३, ११; -ग्राम् वैश्रौ १०, ३ : ५;
 -ग्रे बौश्रौ १, १३ : २८; भाश्रौ
 २, ९, ९; हिश्रौ १, ८, ११; -ग्रैः
 शाश्रौ १७, १०, १४.

उदीचीना(न-अ)वनत-
 -तम् आपश्रौ १०, २०, १.

उदीच्य- पा ४, २, १०१; -च्येषु
 काश्रौ २२, २, २५; या २, २;
 -च्यौ वैश्रौ १०, ३ : ६.

उदीच्य-ग्राम- -मात् पा ४,
 २, १०९.

उदीच्य-वृत्ति- -त्तिः आपध
 २, १७, १७; हिध २, ५, ४५.

†उद्-अच् L, ख]त्- -चन् आपश्रौ
 ४, १०, ४; भाश्रौ ४, १५, ३;
 -खन् हिश्रौ ६, ३, २.

a) वैप १ द्र. । b) विप. । बस. उप. = ऊर्ध्वभाग- । c) विप. । बस. । d) °चीप्र° इति पाठः ?
 यनि. शोधः (तु. बौश्रौ. प्रष्ट.) । e) विप. । द्रस. > बस. ।

उद्-अचन^०- -नः बौश्रौ ६, ३४ :
९; -नात् आपश्रौ १३, २, २;
-नान् बौश्रौ ७, ७ : २७; ८,
१० : १२; -नेन आपश्रौ १२,
१३, २; बौश्रौ ७, ६ : ८; ८, ९ :
७; २५, १८ : ४; ६; वैश्रौ १५,
१४ : ७.
उद्-अच्य कौसू ७५, १६.
१उद्-अञ्चन^०- -नम् मागृ २, ११,
१८; -नान् बौश्रौ ६, ३४ : ५;
-नेन काश्रौ १०, ५, १; माश्रौ
२, ४, ४, १०; ५, १, १६; हिश्रौ
८, ३, ४६; कौसू ४३, १९.
उद्-ईचम्^० कौगृ ३, १३, १६.
उद्-अज्, उदाजत गो २, २७.
उद्-अज- पा ३, ३, ६९.
उद्-अजिन- पा, पाग ६, २, १८४.
उद्-अञ्ज^०- (> औदज्ञायनि- पा.) पाग
४, १, १५४.
औदज्ञायन- -नाः बौश्रौप्र १५ : १.
उद्-अञ्च् उद्-अच् द्र.
उद्-अञ्च्-> औदञ्चि- पा, पाग २, ४,
५९.
२उद्-अञ्चन^०- (> औदञ्चनक^०- पा.)
पाग ४, २, ८०.
उद्-अञ्चु^०- (> औदञ्चवि- पा.) पाग ४,
१, ९६.
उद्-धि- प्रभृ. √उद्, न्द् द्र.
उद्-अन्, उदनिहि कौगृ १, १६,
३; उदनीहि शां १, २४, २.
उद्-अन- पागृ १, १६, १४; -नः

काश्रौ २५, १०, २१; आपश्रौ ९,
१०, ३; वैश्रौ; -नम् काश्रौ ९,
४, २८; २९; २५, १०, २०;
२२; आपश्रौ; -नाय शाश्रौ
१, १०, २^०; काश्रौ ९, ६, ५^१;
आमिगृ; बौध ३, ८, ११^१; -फने
हिश्रौ १५, ५, २७; आमिगृ २, ४,
१० : ३१; ६, ७ : २६.
उद्दान-रूप- -पाभ्याम् कौसू
७२, ४२; -पे^१ माश्रौ १, ४, २,
१२; वाश्रौ १, १, ३, १६; लाश्रौ
४, ११, २१; वैताश्रौ ३,
२०; वागृ १२, २; मागृ १, ९,
२५.
उद्दान-व्यान- -नौ^१ काश्रौ ३,
४, २७; द्राश्रौ १२, ३, २३.
उदान-समान- -नौ बौध २,
१०, ४६^१.
उदन्- √उद्, न्द् द्र.
उद्-अन्त^०- -न्तम् काश्रौ २५, २, ८;
वाधूश्रौ ३, ३७ : ३.
उदन्ती/कृ> उदन्ती-कृत्य आपश्रौ
६, ६, ३.
√उदन्य, १उदन्य- √उद्, न्द् द्र.
२उदन्य- (> औदन्यायनि-) उदज्ञ-
टि. द्र.
३उदन्य^०-> औदन्य- -न्यः शुभ्र ३,
४७.
औदन्यि- पाग २, ४, ५९.
उदन्यु- √उद्, न्द् द्र.
उद्भृ, मज्जि^०-> औदभृ L, मज्जि-

पाग २, ४, ५९.
उदमय^०- -याय^१ आमिगृ १, २, २ :
२१^१; भागृ ३, १० : ६; हिगृ
२, १९, ६.
उदमेघ^०- पा ६, ३, ५७; -घाय बौगृ
३, ९, ५^१.
औदमेघ- -घाः बौश्रौप्र ४३ :
१.
औदमेघि- पाग २, ४, ५९; ४,
३, १३१^१; -घयः बौश्रौप्र १७ :
८.
औदमेघीय- पा ४, ३, १३१.
उदमेय- (> औदमेयि-, औदमे-
यीय-) उद-मेघ- टि. द्र.
उदय- प्रभृ. उद्-इ द्र.
उद-यान- उद-पान- टि. द्र.
उदर^०- पाउ ५, १९; पाग ५, १, २^०; २,
११७; पावाग ३, २, १५; -रः
वैश्रौ १३, १७ : ७; वाध ३०, ५;
-रम् शाश्रौ १५, १८, १; २२, १;
आपश्रौ; बौपि ३, ८, १; ९, २१;
या ४, ७; -रस्य आपश्रौ १५,
१५, १; माश्रौ ११, १५, १६;
हिश्रौ २४, ६, १८; अप ४८,
८०; -रात् अत्र ९, ८^१; -रे
शाश्रौ ४, १४, २७; काश्रौ;
पा ६, ३, ८८; -रेण आपश्रौ
३, १९, ७^१; बौश्रौ; -रेषु
या ६, ४; -रैः आपश्रौ २१,
१२, ७; हिश्रौ १६, ५, ३.
औदर^१- -रः सु १७, १.

a) नाव. । गस. उप. करणे ल्युट् प्र. ।

b) गस. कमुलन्तम् (तु. तत्रैव प्रतियोगि प्रतीपम्) ।

c) सपा. शां ४, १४, ४ उञ्जीयम् इति पाभे. ।

d) व्यप. । व्यु. ? । २उदन्य- इति पाका. । e) व्यप. ।

v्यु. ? । f) अर्थः व्यु. च ? । g) = देश-विशेष- ? ।

h) पाभे. वैप २, ३ खं. प्राणाय माश १, ८, १, १४

टि. द्र. । i) पाभे. वैप १, ८९८ i द्र. ।

j) पाभे. वैप १, ८९८ k द्र. । k) विप. । बस. ।

l) सप्र. ंमयाय <> ंमेघाय इति पाभे. ।

m) ंमा^० इति पाठः ? यनि. शोषः । n) ंधि- इति पाका. ।

o) वैप १ द्र. ।

p) तु. पाका. । दर- इति भागडा. ।

q) वामोदरम् इति B. । r) विप. ।

तत्रमवीयः अण् प्र. ।

औदरिक- पा ५, २, ६७.
 उदरा,री- पा ४, १, ५५.
 उदर-क्रिमि^१- पाग २, १, ४८; ६,
 २, ८१.
 उदर-दार^२-र: अअ ११, ३, (२)†.
 उदर-पूरम् पा ३, ४, ३१.
 उदर-प्रभृति- त्तीनि वैश्रौ १, १: १९.
 उदर-मेदस्-द: काश्रौ ६, ७, १२.
 उदरं-भरि^३- पा ३, २, २६.
 उदर-वत्- पा ५, २, ११७.
 उदर-व्याधि-> विव- -त:
 शाश्रौ १४, २७, २.
 उदर-शय- ३, २, १५.
 उदर-सर्पिन्- -रिण: आपमं २, १७, ४
 उदर-स्थ- -रथेन वाध ६, २७.
 उदरा(र-आ)दि- -दिभ्य: पावा ६,
 २, १०८.
 उदरा(र-अ)धे(ध-इ)षु- -षुषु पा
 ६, २, १०७.
 उदरिक-, उदरिन्-, उदरिल- पा
 ५, २, ११७; उदर्ये- पा ५, १, २.
 उद्-अरण-, रथि- उद्✓ऋ द्र.
 उद्-अर्क- उद्✓ऋच द्र
 उद्-अर्चिस्^४- -विपि कप ३, १, १९.
 उद्✓अर्द, उदर्ययति कौसू ३४, १९.
 उद्✓अर्प-> ऋउदरिपित- -त: काश्रौ
 २५, ११, २२; आपश्रौ १०,
 १३, १०; बौश्रौ २८, ९: १२.
 अद्-अर्ष- उद्✓ऋप द्र.
 १उदल^५- -लम् आाम्पृ २, १, ३: ९;
 भागृ १, २२: १५; हिगृ २, ३, ३;
 आपम २, ११, १९.
 २उदल^६- -ल: साअ १, २३१.
 औदल- -०ल आश्रौ १२, १४,

२; आपश्रौ २४, ९, २; बौश्रौप्र
 ३१: १०; हिश्रौ २१, ३, १२;
 -लम्^७ लाश्रौ ७, ८, १; क्षुस् १,
 ३: ५; १३; ५: २१; ७: २२;
 ८: १५; २७; २, १: १५;
 २१; २: ४; निस् ७, ९: २९.
 औदल-व्वाप्टीसामन्- -न्नो:
 द्राश्रौ ८, २, २६; लाश्रौ ४, ६,
 १७?।
 औदल-बृहत्- -हती द्राश्रौ
 ८, १, ६; लाश्रौ ४, ५, ७?।
 औदल-रथान- -ने द्राश्रौ ८,
 १, ७; ३, ११; लाश्रौ ४, ५, ७; ७, १.
 उदल-वत् आपश्रौ २४, ९, २; बौश्रौप्र
 ३१: १०; हिश्रौ २१, १, १२.
 उदलाकाश्यप^८- -पम् पागृ २, १३, २
 उद्✓अव्, ऋउदव, > वा आपमं १,
 १४, ३; शुप्रा ३, १२९.
 उद्-(अ)>आवत्- -वता ऋप्रा २,
 ७७.
 उदवता-वर्जम् उस् ४, २१.
 उद्-अव✓सो, उदवस्यति आपश्रौ
 १८, २१, ८; २०, २३, ५; आपध
 २, ७, ७; हिध २, २, २८; उदव-
 स्येत् शाश्रौ ३, १९, १३; बौश्रौ
 २१, २६: ८; २४, ३७: १४;
 २६, १०: १८; आगृ ४, १, १.
 उद्-अवसान- -नम् बौश्रौ २६, २: २
 १५; -ने बौश्रौ २१, २६: ८.
 उदवसान-काल- -ले वैश्रौ २१,
 ९: ८.
 उदवसानीय, या^९- -य: मीक्ष
 १०, २, ३७; -यम् काठश्रौ
 १६२; वाधूश्रौ ४, ३२: २५;

-यया आश्रौ ६, १४, २३; शाश्रौ;
 -या शाश्रौ १५, १६, २; काश्रौ;
 -न्या: माश्रौ ७, २, १६, २०;
 -यात् आपश्रौ १४, २२, १३;
 -याभि: शाश्रौ १८, २४, २७;
 बौश्रौ २३, १२: २३; वाश्रौ ३,
 २, २, ४७; द्राश्रौ ११, ४, २०;
 लाश्रौ ४, ४, १९; निस् १०, १०:
 १२; -याम् बौश्रौ ८, २२: २××;
 माश्रौ: -याया: काश्रौ ८, १, ४;
 आपश्रौ १३, २५, ३; ७; २१, २,
 १५; वैश्रौ १२, १५: ४; २१, ५: ७;
 हिश्रौ ९, ६, ३०; १५, ५, १७;
 -यायाम् शाश्रौ ९, २८, १८;
 काश्रौ: -ये काश्रौसं ३०: ११;
 -येन काश्रौसं २९: १०; -येषु
 हिश्रौ १६, ५, १२; -यायै बौश्रौ
 १९, ८: ७.
 १उदवसानीया(य-अ)न्त-
 -न्ते काश्रौ १४, ५, ३५; १८, ६,
 २३: २०, ८, २४; २२, ६, १८;
 २४, ६, १२.
 २उदवसानीया(य-अ)न्त^{१०}-
 -न्त: बौश्रौ १२, १: ४; १६:
 २९, १८: २८; २०: १८; २६.
 उद्-अवसाय आश्रौ ६, ८, १४; शाश्रौ
 उद्वाप^{११}- > औदवापि^१- > (औद-
 वापीय- पा.) पाग ४, ३, १३१.
 उद्-वास- १उद-वाह- प्रसृ. ✓उद्,
 न्द्र द्र.
 २उदवाह^{१२}-> औदवाह- -हम् अप
 ४३, ४, ५१.
 औदवाहि^१- (> ङीय- पा.)
 पाग ४, ३, १३१.

a) तु. पाका. । उदुस्वर-क्रिमि- इति भाण्डा. । b) वैप १ द्र. । c) कर्तरि इति प्र. सुस् द्र. ।

d) विप. । वस. । e) उदरिध: [काश्रौ.] इति, तदरिध: [आपश्रौ. बौश्रौ.] इति पाठौ? यनि. शोध: (तु. C.) ।
 f) =उदर- (तु. आपमं [भू XXIV]) । g) व्यप. । व्यु. ? । h) =साम-विशेष- । i) ऊं इति पाठः? यनि. शोध: ।
 j) उं इति पाठः? यनि. शोध: । k) =कृषिदेवता-विशेष- । व्यु. ? । l) *वाहि- इति पाका. ।

-हिम् आगृ ३, ४, ४; कौगृ २, ५, ३; शांगृ ४, १०, ३.
उद्वज-^a > **औद्वजि-** पाग २, ४, ५९; -जि: वौश्रौप्र ४१:३; ऋत २, ६, १०.
उद्वशुद्ध^a - > **औद्वशुद्धि^b** - पाग २, ४, ५९.
उद्/अस् (क्षेपणे), उदस्यति काश्रौ ५, १०, १६; आपश्रौ; उदस्यन्ति काश्रौ १४, ५, १२; उदस्येत् वौश्रौ २०, ९ : ३×५; हिश्रौ; उदस्येयुः द्राश्रौ १३, ३, ५; लाश्रौ ५, ३, ८.
उद्-अमन^c - न: वौश्रौ २०, ९ : २; -नम् आश्रौ १४, ७, ५; हिश्रौ ९, ८, ३७; १३, १, २४; -ने वौश्रौ २०, २८ : १७.
उद्-असिक्त्वा आपश्रौ १६, १४, १; वौपि ३, २, ९^d; हिपि ३ : ८; १५ : २.
उद्-अस्य काश्रौ १७, १, ४; आपश्रौ.
उद्-आस- न्यः निम् २, ९ : १९.
उद्-आसम् लाश्रौ ७, १३, ५^f.
उद्-सक्तु- प्रभ. ✓उद्, न्द्र द्र.
उद्-आ/कृ > उदा-कृत- -तम् हिश्रौ २१, १, १^f.
उदा-कृ(त्य>) न्या- -त्या आपश्रौ २२, १६, १५^f.
उद्-आ/क्रम, उदाकामताम् शाश्रौ १४, ७, २.
†उद्-आ/गा, उद्...आगात् आपश्रौ ५, ९, १०; माश्रौ १, ५, २,

११; वाश्रौ १, ४, २, १; हिश्रौ ३, ३, ३०; उद् (आगात्) भाश्रौ ५, ५, ८; वैश्रौ १, ९: ७; उद्... आगुः वाधूश्रौ ३, ५५ : १; ४, ८५ : १५; उदागाम् अप्रा २, ४, १६.
उद्-आ/चक्ष्, उदाचक्षते वाधूश्रौ ४, २८ : ९.
उद्-आ/चर् > उदा-चार^e - -रेषु आपघ १, ३, १५; हिघ १, १, ८८; २, ९१.
उद्-आ(आ/अ)ञ्, †उदाजनु हिगृ १, १८, ४^f; १८, १^f.
उद्-आ/जन्, उद्(आजानष्ट) शाश्रौ ९, १४, ३^f.
?उदात्तानुदात्तम्... जैश्रौका १०१.
उद्-आ/दा(दाने) > उदा-त्त^h - -त्तः जैश्रौका ८८; अप ३४, १, २; या ५, ५; ऋप्रा; नाशि १, ८, २^h; पा ६, १, १५९; २, ६४; ४, ७१; ७, १, ७५; ८, २, ८२; -त्तम् आश्रौ ७, ११, २×५; हिश्रौ; या ४, २५; ६, २८; पा १, २, ३२; -त्तयोः शुप्रा ६, ४; तैप्रा ५, १३; १०, १६; १९, १; २०, १; माशि ७, १०; कौशि १२; -त्तस्य उस ८, १६; १७; शुप्रा ४, ४८; शौच ३, ५८; भासू १, २३; -त्ताः अप ४७, ३, ५; शौच १, ७७; कौशि २१; ३१; -त्तात् आश्रौ ७, ११, १६; ऋप्रा ३, ४; उसू ८, ८; २५; शुप्रा ४, १३५; ६, १२; तैप्रा १, ४१; १४, २९; शौच ३, ६७; माशि ५, १; याशि १, ५७; ८७ⁱ; ८९;

कौशि ९; पा ८, ४, ६६; पावा १, २, ३२; ८, २, ४; -त्तानाम् माशि ५, ४; नाशि २, २, ४; -त्तानि कौशि ३०; नाशि २, २, ५; -त्ताभ्याम् माशि ७, ३; याशि १, ७९; नाशि २, १, ३; -त्ते शुप्रा १, १२४; तैप्रा १२, १०; पाशि १२; माशि ५, ८^g; नाशि १, ७, १८; ८, ८; २, १, ११; -त्तेन हिश्रौ २१, २, ३२; उसू ८, ९; २४; अप्रा २, ३, २२^g; शौच ३, ६६; ४, १; कौशि १५; पा ८, २, ५; -त्तौ आश्रौ ७, ११, १२; शुप्रा ४, ६२; माशि ७, ६; नाशि २, १, २.
उदात्त^o पा ६, १, १७४.
उदात्त-क^l - -कम् याशि १, ४; कौशि ३४.
उदात्त-कम्प- म्पः शैशि १४९.
उदात्त-गीति^k - ति जुम् ३, ४ : ११; -तीनि निम् २, ३ : १५.
उदात्त-त(र>)रा- -रा ऋप्रा ३, ४.
उदात्त-त्व- -त्वम् पावा ३, १, ४४; -त्वे पावा ६, १, १६८.
^oउदात्तत्व- त्वे पावा ६, १, १७६.
उदात्त-निर्देश- -शात् पावा ६, १, १३.
उदात्त-पर^k - -रयोः कौशि १६.
उदात्त-पूर्व^k - -र्वः ऋप्रा ११, ५७; तैप्रा २०, ७; याशि १, ८२; -र्वम् ऋप्रा ३, ७; १७; शुप्रा ४,

a) व्यप. । व्यु. ? । b) व्यप. । °बुद्धि- इति पाका., औदकशुद्धि- इति पागम., औदकशौद्धि- इति पाका ७, ३, २० । c) भाप., नाप. । d) तु. B.; वैतु. मैसु. निरस्य इति । e) गस. उप. अधिकरणे वञ् प्र. । f) पाभे. पृ ५२४ f द्र. । g) Böht [ZDMG ५२, ८५] उपाजतु इति विपठिषुः । h) विप., नाप. (पारिभाषिक-संज्ञा-) । उद्-आत्त- इति MW. । i) पाठः ? अनुदात्तः इति शोधः । j) स्वार्थे कन् प्र. । k) विप. । बस.

१३५; नाशि २, १, ४; -र्वस्य
भासू १, २१; २२; -र्वे ऋप्रा ११,
५५; माशि ७, ८.
उदात्त-पूर्वक^१ -कः कौशि २६.
उदात्त-पूर्व-रूप^२ -पेषु ऋप्रा ३,
१३.
उदात्त-प्रचित- -तानि अप ३४,
१, ३.
उदात्त-मय- -यः शुप्रा १, १५०;
-यम् शुप्रा ४, १४१०.
उदात्त-लोप- -पः पा ६, १,
१६१; -पात् पावा ६, २, १९७;
-पे पावा ६, १, १५७.
उदात्त-वचन- -नम् पावा ३, ४,
१०३.
उदात्तवचना(न-अ)नर्थक्य-
-क्यम् पावा ६, १, १५४.
उदात्त-वत् अप्रा १, १, १२.
उदात्त-वत् -वतः पावा ८, १,
७१; -वति ऋप्रा ३, ११; तैप्रा
१०, १०; पा ८, १, ७१; -वान्
शुप्रा ४, १३४; ऋत २, ६, २.
उदात्त-श्रवण- -णम् शैशि २४१.
उदात्त-श्रुति- -तिः ऋप्रा ३, ५;
तैप्रा २०, १०; शौच ३, ७१.
उदात्तश्रुति-ता- -ताम् ऋप्रा
३, १९.
उदात्त-संहिता>त^३ -तानि
अप्रा २, ३, २२; २३.
उदात्त-सदृश- -शम् कौशि ६.
उदात्तसदृश-श्रुति- -तिः
कौशि ७.
उदात्त-सम- -मः तैप्रा १, ४२;
४६.
उदात्त-स्वरित- -तयोः तैप्रा

१९, १; पा ८, २, ४.
उदात्तस्वरित-पर^४ -रः तैप्रा
१४, ३१; २१, ११; -रम् शुप्रा
४, १३८^५; शौच ३, ७०; -रस्य
पा १, २, ४०; पावा १, २, ३२.
उदात्तस्वरितो(त-उ)दय^६-
-यम् ऋप्रा ३, १७; २१; शुप्रा ४,
१४३; पा ८, ४, ६७; -यानाम्
शौच ३, ६५.
उदात्त-स्वरितो(त-उ)दात्त-
-त्ताः याशि १, ५८.
उदात्ता(त-अ)क्षर- -रयोः याशि
१, ८५.
उदात्ता(त-अ)दि- -दयः शुप्रा
१, ११२; -दिषु पावा १, १,
५१^७; -दीनाम् उस् ८, २८; -देः
ऋप्रा ७, ७; उस् ८, १६; १७.
उदात्ता(त-अ)नुदात्त- -त्तम्^८
लाश्रौ ७, ९, ७; -त्तौ भासू १, ५.
उदात्तानुदात्त-स्वर-संनि-
पात- -तात् आशि ८, २२.
उदात्ता(त-अ)नुदात्त-स्वरित-
-ताः आमिग २, ४, १२ : १०;
-तानाम् आश्रौ १, २, ९; तैप्रा
१८, २.
उदात्ता(त-अ)नुदात्त-स्वरिता-
(त-अ)नुनासिक-दीर्घ-प्लुत-
-तानाम् पापत्रा १७.
उदात्ता(त-अ)न्त^९ -न्तम् कौशि
४९.
उदात्तो(त-उ)पदेश^{१०} -शस्य पा
७, ३, ३४.
उदात्तो(त-उ)पस्थित^{११} -ते
माशि ८, ५.

†उदा-दाय आपश्रौ २, ३, १०; उद्-आ/यु, उदायौति कौस् २, ११.

बौश्रौ १, ११ : ३५.
उद्-आ/द्, उदाद्वेत् आपश्रौ ९,
८, ४; भाश्रौ ९, ११, ४; वैश्रौ
२०, १४ : ३.
उद्-आन- प्रसृ. उद्/अन् द्र.
उद्-आ/नी, उदानयति आपश्रौ ७,
१८, १××; बौश्रौ; उदानयन्ति
वाधूश्रौ ३, ९४ : ९; वाश्रौ ३,
४, ४, १२; १६; उद्-आनयन्ति
आपश्रौ ११, १७, १; बौश्रौ ६,
३० : २०; १४, ३ : ६; हिश्रौ
७, ८, ९; †उदानय काश्रौ ६,
५, २६; ९, ३, ३६; १०, ६, २०^{१२};
आपश्रौ^{१३} १२, ५, २; १३, १४, ११;
१४, १, ७; बौश्रौ^{१४} ७, ३ :
८; १५ : २४; ८, १४ : २७;
वैश्रौ^{१५} १५, ५ : ७; १६, १८ : १;
हिश्रौ^{१६} ८, १, ५८; ९, ४, २३;
उदानयेत् द्राश्रौ ११, ४, १४;
लाश्रौ ४, ४, १३; उदानयेयुः
वौश्रौ २२, ८ : ५; २३, ९ : १४;
१५; १६.
उदानियुः वाधूश्रौ ३, ९४ : ६.
उदानयत् -यन् बौश्रौ ४, ६; ४२;
५, ७ : १२; ६, ३ : ११.
उदानयन- -ने बौश्रौ २०, २८ :
१९; २१, ८ : २९; २३ : १९.
उदा-नीय आपश्रौ १८, १४, १०;
बौश्रौ १२, १७ : १३; २१, ८ :
३०; २२, २० : ५; काय २५, ५.
उद्/आप्, उदाप्यन्ति बौश्रौ ११,
११ : १८.
उद्-आ/या, उदायाति कौस् १७,
२३.
उद्-आ/यु, उदायौति कौस् २, ११.

a) विप. । बस । b) विप. । बस. > कस. । c) अनुदा^१ इति पाठः? यनि. शोधः (तु. भाष्यम्,
कासं च) । d) ंत-स्वरम् इति पाठः? यनि. शोधः (तु. कासं.) । e) समाहारे द्वस. । कस. उप.
= [अनार्ध-] इति-शब्द- (तु. पा ६, १, १२९) । g) पाप्मे. वैप १, ९०० a द्र. ।

१६:१४; वैश्रौ १८,९:३; हिश्रौ
११,४,२; या २, २२; उदियात्
शांश्रौ १, ३, ५; आपश्रौ २२, २,
१९; काश्रौसं २७ : ८; वौश्रौ ९,
१८ : १३; १७; २०, १ : ६; ९;
माश्रौ ३, ७, ३; हिश्रौ १५, ६,
३५; हिपि ७ : ४[†].
उदियाय वृदे ५, १५२; उदेता
काश्रौ ४, २, १; भाश्रौ १, १, ८.
उद्-अय^३—-यः अप ५२, १४, १;
ऋप्रा ४, ५; १२; —यम् शांश्रौ
९, २०, १९; बौश्रौ ७, ६ : २०;
२१, ३ : ११; शांय ६, ३, ४;
हिश्र १, १०, ३^b; अप ७०^३, २३,
१४; वृदे २, ५९; —ययोः ऋप्रा
४, १५; —यस्य ऋप्रा ४, ६;
११, ५४; —याः ऋप्रा २, ३९;
९, ५; ३१; वेज्यो २९; —यात्
आश्रौ २, २, ८; शांश्रौः —यान्
तैप्रा ९, २१[†]; —याय अप ६४,
१०, ५; —ये अप ५५, १, ८××;
वैध; —येन या १२, १४; २८;
—येषु या ११, २३; ऋप्रा २,
४९[†]; ४, ३; ८३; शैशि ३२१.
उदय-संधि—-धिः निस् २, १२ :
१७.
उदय-स्वरा (र-आ) दि—
संस्थान—-नः तैप्रा २, ४७.
उदय-होम—-मे अप ४५, १, २२.
उदया(य-अ) दि—-देः ऋप्रा
७, ४.
उदया (य-अ) पाय-कर^c—-रः
ऋप्रा ११, ६६.
उदया(य-अ)स्त^d—-स्ते अप ६८,

५, २५.
उदया (य-अ) स्तमय—-यम्^d
अप ६१, १, १५; —ये^d अप ६५,
१, ७; बौध २, ३, ३१; —यौ माश्रौ
२, १, २, ३३; ३, १८; द्राश्रौ ७, ३,
२९; लाश्रौ ३, ३, २९.
उदया(य-अ)स्तम्-असंभव^e—
—वात् अप ५२, १५, २.
उदयो(य-उ)दय—-याः ऋप्रा ८,
२.
उद्-अयत्—-यन् शुप्रा १, १५.
उद्-अयन—-नम् माश्रौ ६, १, १,
१३; वैश्रौ १८, १ : २३; हिश्रौ
११, १, १७; १६, १, ३३[†];
जैश्रौ ८ : ३; १६ : ८; अप ५५, ६,
४; वाध १, १५; बौध १, १, २८[†];
२, ६, ८; —नात् कप्र २, १, १४^f.
उदयन-तस(ः) शांश्रौ १७, १, ४;
निस् ४, २ : १.
उदयनीय, या^g—-यः आश्रौ ११,
१, ३; १२, ३, ६; २१, २१,
१; शांश्रौ; —यम् शांश्रौ १८,
२४, १; आपश्रौ; —यया आश्रौ
६, १४, १; वौश्रौ; —यस्य
वौश्रौ १४, २१ : ३६××; —या
शांश्रौ ८, १२, १××; काश्रौ; —यात्
बौश्रौ १६, १६ : ८; द्राश्रौ ६,
४, १३; लाश्रौ २, १२, १४; लुस्
१, १ : २४; —याम् बौश्रौ १८,
५० : २१; —याय बौश्रौ ६,
१२ : ३; १२, २० : २४; २६,
२ : २०; माश्रौ २, १, ३, २८;
वैश्रौ १२, १६ : ४; —यायाः आश्रौ
४, २, ६; हिश्रौ ९, ६, १; —यायाम्

काश्रौ २२, ९, ५; आपश्रौ; —याये
काश्रौ ७, ५, १४; —ये आश्रौ
१२, ७, १३; काश्रौ; शुभ्र ४,
१९१; मीस् ११, २, ६४^h; —येन
वौश्रौ २१, २५ : १८; २५,
२६ : ६.

उदयनीया(य-अ)न्त—-न्ते
काश्रौ २४, ६, ९.

उदयनीया(य-अ)र्थⁱ—-र्थम्
आपश्रौ १०, २१, १८.

उदयनीये(य-इ)ष्टि—-ष्टया
वौश्रौ १०, ५९ : १५; १२, १६ :
२६.

१ उद्-इत्, ता— पाग २, १, ५९;
—तः अप ५२, २, ३; विध १, ९;
वृदे २, ६२; या ५, ९; —तम्
अप ५३, ६, १; —तस्य^j या १४,
११; —ताः अप ५२, १५, ४;
५५, १, १; —तान् अप ५०, ७, २;
—तंताय आपश्रौ २०, १२, १०;
वौश्रौ १५, २२ : ९; वाश्रौ ३,
४, २, ११; हिश्रौ १४, ३, ६; —ते
आश्रौ २, ४, २४××; शांश्रौ;
—तेषु आपश्रौ १०, १७, १; बौश्रौ.
उदित-होम—>^kमिन्—मिनाम्
कप्र १, ९, २.

उदिता(त-अ)नुदित—-ते आपश्रौ
१५, १८, १३; भाश्रौ ११, १९, ३.
उदिता(त-अ)र्क>^lका^l—-का^lम्
वैश्र १, ३ : २१.

उद्-इति—-ता आपमं १, १४, ४[†];
—तंतिः आपश्रौ १६, ३०, १;
वैश्रौ १८, २० : ४४; हिश्रौ ११,
८, ४; —तेः माश्रौ २, ५, ४.

a) नाप., भाप. ।

b) पुरा इत्यस्य योगे द्वि. द्र. (तु. पावा २, ३, २) ।

c) द्वस. > उस. ।

d) = उदयास्तकाल- । समाहारे द्वस. । e) द्वस. > षस. । f) पाभे. पृ ६४४ h द्र. । g) वैप १ द्र. ।
h) प्रायणीये इति कसं. । i) बस. वा. क्वि. । j) पाटः ? त्तः (सूर्यः) इति शोभाहः (तु. RNM.) ।
k) विप. । बस. । l) पाभे. वैप १, ९०२ e द्र. ।

उद्-एतोसः (ः) आश्रौ ६, ५, ८;
आपश्रौ १०, १२, ३; १६, २, ७;
वाधूश्रौ ३, २७ : ४; ४, ९४ : ६.

उद्-एव्यत्- -व्यति वाश्रौ ३, ४, २,
११; हिश्रौ १४, ३, ६; -फण्यते
आपश्रौ २०, १२, १०; बौश्रौ
१५, २२ : ७; वाश्रौ ३, ४, २,
११; हिश्रौ १४, ३, ६.

उद्-यत्- -यता आपश्रौ ८, ९, २;
११, २२; बौश्रौ; -यताम् पागृ
१, ३, ८^१; मागृ १, ९, ८; -यति
आपश्रौ २०, १२, १०; वाश्रौ
३, ४, २, ११; हिश्रौ; -फण्यते
आपश्रौ २०, १२, १०; बौश्रौ;
-यसु आपश्रौ ५, १०, ८;
माश्रौ १, ७, ५, ३१; ५, १, ६,
६; हिश्रौ ३, ३, ४२; १०, ८,
२७; -फण्यन् आपश्रौ ४, १५,
१^१; ६, ६, ८; बौश्रौ; या २,
२१५; ७, २७; -यन्तः हिश्रौ
१७, ७, ८; -यन्तम् आपश्रौ
४, १, ८^१ × ×; काश्रौसं.

फण्यती- -ती आपश्रौ १६,
३०, १; वैश्रौ १८, २० : ४४;
हिश्रौ ११, ८, ४; लुसू १, २ :
१३; -तीम् निसू १, १० : ११^१;
-त्यः लुसू १, १ : ९; ४ : १८;
-त्याः लाश्रौ ६, ७, २; निसू १,
११ : ३१; -त्याम् लाश्रौ ६,
५, ११; निसू १, १० : १६.

उद्यती-पर्याय- -ययोः
लाश्रौ ६, ७, ३.

उद्यत्-स्तोम- -माः बौश्रौ १६,
२८ : ३; -मेषु बौश्रौ २३, १२ :

१०; २६, २० : ८.

उद्/इङ्ग, उदिङ्गयति काश्रौ २, ३,
३४; उदिङ्गय आमिगृ ३, ८, २ : ७^१

इउदित-प्रभृ. उद्/इ द्र.

रउदित- प्रभृ. √वद् द्र.

उदिति- उद्/इ द्र.

उदित्वा √वद् द्र.

उदिसत्रा- -त्रा अप १८, १, १६.

उद्/ई, उदीयात् हिश्रौ १७, १, ३५;
लाश्रौ ८, ३, १४.

उद्/ईक्ष, उदीक्षते भाश्रौ ७, ८, १७;
भागृ २, २२ : १६; उदीक्षन्ते
शांगृ ६, ५, ६; अप ७०^३, ७, १९;
७१, १२, १; उदीक्षेत अप ७०^३,
७, २०; ७१, १२, ३; शंघ ३०३;
उदीक्षेत(?) आमिगृ ३, ६, २ : १४.
उदीक्षयति आपश्रौ २२, २८,
२३; बौश्रौ ४, ६ : ४१; ६, १२ :
१४; हिश्रौ २३, ४, ६४; पागृ
१, ८, ७; १७, ६; २, २, १५;
आमिगृ २, ४, ६ : २५; भागृ १,
९ : १५; उदीक्षयेत् बौश्रौ २१,
११ : १५.

उद्-ईक्षण- -णम् अप ४०, ६, ९;
-णे बौश्रौ २१, ११ : १५.

उद्-ईक्षमाण, णा- -णः गोगृ ४,
८, ३; -णा वाध १७, ६९.

उद्-ईक्षण- -णाः वाध १६, ३२.

उद्-ईक्ष्य बौश्रौ २०, २८ : २०.

उदीची- उदीचीन- उदीच्य- प्रभृ.

उद्/अन्, ञ् द्र.

उद्/ईर, फण्यतीरति आश्रौ ५, ३,
२२^१; फण्यतीरते आपश्रौ १३,
२१, ३; हिश्रौ ९, ५, ४३; अप्राय

२, ७; अप २, १, २२; फण्यतीर
(ईरते) आश्रौ २, १, २५; ३,
१२, २९; ५, १६, २; ७, ४, ३;
शाश्रौ; फण्यतीरताम्^१ बौपि २, ९,
१२^१; फण्यतीरताम्^१ बौपि २, ९,
१२^१; फण्यतीरताम्^१ आश्रौ २,
१९, २२; ५, २०, ६; शाश्रौ;
या ११, १८; फण्यतीरताम्^१
आश्रौ २, १९, २२; ५, २०, ६;
बौश्रौ २, ८ : २८^२; १७, ३६ :
१२; आगृ २, ४, ६; या ११,
१८^२; फण्यतीरताम्^१ शाश्रौ १६, १३,
१३^१; वैताश्रौ ३८, ३, आपमं
१, १०, १^१ × ×; आगृ; फण्यती-
राथाम् आश्रौ ४, १५, २; शाश्रौ
६, ६, २; १५, ८, १३; ऋअ २,
८, ७३; उद् (ईराथाम्) वृदे ६,
९४^१; फण्यतीरताम्^१ कौगृ ४, ४,
१७; शांगृ ४, १८, १२; मागृ २,
७, ५^१; उद् (ऐरतम्) शैशि
२६५^१; उद्... ऐरत वैताश्रौ
२२, १३^१; फण्यतीर (ऐरत) आश्रौ
५, १६, २^१; ७, ४, ९; २३, ८;
शाश्रौ १२, ४, ३; १८, १९, ९;
ऋअ २, ७, २३; साश्रौ १, ३३०;
अअ २०, १२.

उदीरयति माश्रौ १, २, ५, २१;
फण्यतीरयथ > था^१ आश्रौ २,
१३, ७; बौश्रौ १३, ३९ : ७;
आमिगृ २, ५, १० : २९; ११ :
२१; ऋप्रा ८, ३१; तैप्रा ३,
१०; उदीरयताम् बौश्रौ ९,
१८ : ६^१; फण्यतीरय आश्रौ ३,
७, १४; शाश्रौ ३, १३, १२;

a) नाप. । धा. *दीप्ती वृत्तिः । सपा. उद्यताम् <> उद्यतानाम् <> विद्यताम् [तु. Old.] इति पाभे. ।

b) ण्यति इति पाठः ? यनि. शोडः । c) = ओषधि-विशेष- । व्यु. ? । d) पाभे. वैप १, ९०३ ० द्र. ।
e) पाभे. वैप १ परिः उदीरताम् तै २, ६, १२, ३ टि. द्र. । f) पाभे. वैप १, ८८८ m द्र. । g) ष्यम् इति
पाठः ? यनि. शोडः (तु. सपा. ऋ १, ११३, १६) । h) तु. आन. । i) पाभे. वैप १, ९०३ j द्र. ।

शैशि ५५; उद् (ईर्ग्य) वृदे ५, ३७; †उदीरयत्, > ता माश्रौ ५, २, ६, १७; वाश्रौ ३, २, ५, २१; अश्र ४, १५; उदीरयेत् कप्र २, ३, ८; तैप्रा १७, ८.

उद्-ईरण- -णानि वाधुश्रौ ३, २५: ६ उदीरण-प्रभृति- -ति माश्रौ २, २, ११; ३, १, १०.

उदीरण-समय- -ये माश्रौ १, २, ६, ६.

उद्-ईरयत्- -यन् शंघ १०३.

†उद्-ईरण- -णा: आपश्रौ ८, १५, १७; बौश्रौ २, ९ : ९; कौम् २४, ३३; अप ४१, ३, २.

उद्-ईरित- -त: कागुउ ४३: १८; ४५ : १२; कौशि २२; -तम् कौशि ५६; ६४.

उद्-ईर्ण- -र्ण: पाशि ९; -र्णानि या ३, २०.

उद्/उक्ष्, उदुक्षति काश्रौ ४, १४, २७.

उद्-उक्षत्- -क्षज आश्रौ १, ११, ७.

उदुक्षन्ती- -न्तीम् आश्रौ १, ११, ७.

उद्-उपध-त्व- -न्यम् पात्रा १, १, ३९.

उदुप्त- , उदुप्य उद्/वप द्र.

उदुब- > उदुबिनी- कृदुम्बिनी- टि. द्र

उद्/उद्वज् > उद्-उद्वज्य वौश्रौ ७, ४ : ७; २० : ८; ८, ८ : २६.

उदुब्रह्मीय^१- -रस्य शाश्रौ १८, १९, १०; २०, ६.

१ उदुम्बर^१- पाउभो २, ३, ७४. पाग ४, ३, १५४; फि ६४; -र: शाश्रौ १२, २४, २; १७, १,

८; १८; आपश्रौ; -रम् शाश्रौ १५, १९, १; आपश्रौ ५, २, ४; वौश्रौ १२, ९ : ३; १८; भाश्रौ; -रस्य शाश्रौ १७, १, ३: १५; जैगृ १, १९ : ८; अप २६, ५, १; ३६, २, ४; -रान् गोश्र ४, ७, २१; -रान् वाध २७, १२; -रे हिश्रौ १७, १, १३; लाश्रौ ८, २, २; आामगृ १, ३, ३: ३; २, २, ५: १९^{१०}; हिगृ १, ९, १८; २, ६, १२; आ ७१, १६, १; -रेण आपगृ १२, ६; अत्राय ५, ६.

औदुम्बर^१- पा ४, ३, १५४: -र: शाश्रौ १७, ३, ३: काश्रौ; -रम् शाश्रौ १४, १६, ३: १६, १७, १; काश्रौ; आपश्रौ १८, १४, ७^१; -रस्य आपश्रौ २१, १७, ८; -रा: भाश्रौ १, ५, ७; वैश्रौ १३, ७ : १९; हिश्रौ २४, २, ६; जैश्रौ १५ : १९; -राणाम् वौश्रौ १४, ४ : ८; २१, १६ : ४; -राणि आपश्रौ ३, १६, १५: ५, २, ३; १५, ५, ७: ११: भाश्रौ; -रान् वौश्रौ २, ८ : २, २१; ६, ३४ : ७; ७, १ : १७××; भाश्रौ; -राय आमिगृ २, ६, ८ : ३४^१; -रे काश्रौ १४, ५, २०; १५, ४, ३९; १७, ५, ३; २२, १, २५; आपश्रौ ११, १३, १; १८, १३, २१; २१, १७, १४; वौश्रौ; -रेण काश्रौ १२, ५, ६; १७, ३, ३; १९, २, १९; आपश्रौ ८, ४, १××; हिश्रौ १०, १, ३३^१; -रेषु काश्रौ

१५, ४, २४; भाग २, १६ : १०; हिगृ २, १५, ६; -रै: वौश्रौ २३, ३: २७; -री भाश्रौ ११, ५, १३^२.

औदुम्बरी- -री शाश्रौ १७, ३, ४; आपश्रौ; -री: आपश्रौ १५, २०, २××; वौश्रौ; -रीणाम् वौश्रौ २२, ३ : १०; -रीभि: वैश्रौ १०, ५ : ३; -रीम् आश्रौ ५, ३, २४××; शाश्रौ; -रीयौ वैश्रौ १८, ७ : २४^{१६}; -र्ष: जैश्रौका १५०; पागृ २, १०, १३; अप ३६, ७, १; -र्या काश्रौ १८, ५, १; वौश्रौ; -र्या: काश्रौ २६, २, ८; आपश्रौ; लाश्रौ ८, ८, ५^{११}; -र्याम् आपश्रौ १३, ३, ३०; वाश्रौ; -र्यै काठश्रौ ९८; वौश्रौ; -र्यौ आपश्रौ १६, १०, ७^{१७}; वौश्रौ ९, ५ : ३; हिश्रौ ११, ३, २२^{१८}.

औदुम्बरी-वत् मीगृ ६, ६, ४.

औदुम्बर्ष्य (गी-अ) वट- -ट: हिश्रौ ७, ७, ३.

औदुम्बर्ष्या (री-आ) दि- -रय: कौम ११, २; -दि जैश्रौका ३५; -दीन् वैश्रौ १६, २३ : ९; -दीनि कौगृ ११-१२, ११.

औदुम्बर्षु (री-उ)ख्याऽऽ-सन्दी- -न्दी वैश्रौ १८, ६ : ५^{११}.

औदुम्बर्ष्या (री-आ-अ) भिहवन- -नान् आश्रौ ४, ८, २८.

औदुम्बर-तरु (र-उ)च्छ्रित- > ता^१- -ता: जैश्रौका २०९.

a) विप. (सुक्त- [ऋ ७, २३]) । व्यु. वैप १, १११७ j द्र. । b) वैप १, परि. च द्र. । c) गोष्टौदु° इति पाठः ? गोष्ठे, उदु° इति शोधः (तु. हिगृ. । d) वैप १ द्र. । e) पाभे. वैप २, ३खं. उदुम्बरम् तैप्रा १, ७, ६, ५ टि. द्र. । f) ंदु° इति पाठः ? यनि. शोधः (तु. आपश्रौ.) । g) सपा. ०रीयौ [वावि.] <> ०र्यौ इति पाभे. । h) उदु° इति पाठः ? यनि. शोधः (तु. प्रकरणं भाष्यम्) । i) ंबर्ष्याख्या° इति पाठः ? यनि. शोधः (तु. पाभे. पृ ६२५ q) । j) = समिध्- । कस. > षस. ।

औदुम्बर-दण्ड^a - ण्डानि
 आपथ्रौ १५, ५, १४; वौथ्रौ ९,
 ५: ४; भाथ्रौ ११, ५, १८.
 औदुम्बर-दर्बी - च्या आमिगृ
 ३, २, ५: १०.
 औदुम्बर-पर्ण - णानि हिपि
 १८: १; -र्णाम्याम् आपथ्रौ ५,
 ४, १५.
 औदुम्बर-पलाश - शानि
 पागृ ३, ४, ९.
 औदुम्बर-पलाश-कर्कन्धु-
 -न्धुनाम् कौसृ १०, ४.
 औदुम्बर-पात्र - त्रेण आपथ्रौ
 १९, १३, १५; हिथ्रौ २३, २, ४७.
 औदुम्बर-घटशङ्ग - ङ्गाः अशां
 १२, ४.
 औदुम्बर-शकल - लम्
 आमिगृ ३, १२, २: १.
 औदुम्बर-शङ्कु - ङ्कुना
 आमिगृ ३, ४, ५: ३.
 औदुम्बर-शाखा - खया
 आपथ्रौ १३, २०, ८; वैथ्रौ १६,
 २६: २; आमिगृ ३, ४, १: १६;
 ४: १६; वौगृ ३, ५, १९; हिपि
 ९: २; -खाभिः भाथ्रौ १२, ५,
 १०; हिथ्रौ ४, १, ६७.
 औदुम्बर-संदेश - शेन गौपि
 १, ५, २३.
 औदुम्बर-सीर - रे काथ्रौ
 २१, ३, ३३.
 औदुम्बरा (र-अ) भाव - वे
 द्राथ्रौ १०, ४, २; लाथ्रौ ३, १२, २.
 उदुम्बर-कृमि - उदर-क्रिमि- टि.
 द्र.

उदुम्बर-दण्ड - ण्डः वौगृ १, ५,
 १५.
 उदुम्बर-दर्भ - र्भयोः वैगृ २, १३:
 १२; ३, २३: १२.
 उदुम्बर-पत्र - त्राणाम् वैगृ ५, १३:
 १४.
 उदुम्बरपत्र-दर्भ - र्भान् वैगृ ४,
 ४: ४.
 उदुम्बर-पर्ण - णेषु वौगृ २, ४, ६;
 वैगृ ५, ६: १०.
 उदुम्बर-पलाश - शानि भागृ २,
 ५: १.
 उदुम्बर-प्रसून - नैः वौगृ १, १०, ७.
 उदुम्बर-मशक - पागृ २, १, ४८; ६,
 २, ८१.
 उदुम्बर-मूल - लम् वौगृ १, ८, २;
 -ले वौथ्रौ १७, ४०: १५; १९;
 वैथ्रौ १२, ६: ८; आपगृ १०,
 ८; १२, ५; वौगृ १, ८, ८; भागृ
 १, २८: १९.
 उदुम्बर-युग-लाङ्गल^b - लम् वैथ्रौ
 १८, १५: ७.
 उदुम्बर-शकल - लान् वैथ्रौ १३,
 १३: ७.
 उदुम्बर-शङ्कु - ङ्कन् वौपि ३,
 १०, १.
 उदुम्बर-शलाटु^c - टुमिः कौगृ १,
 १४, ७; शांथ्रौ १, २२, ९.
 उदुम्बर-शाखा - खया हिथ्रौ ९, ५,
 ३६; आगृ २, ८, ११; कौगृ ३,
 २, १; शांथ्रौ; -खाभिः आपथ्रौ
 ७, ६, ३; ११, ५, ६; वैथ्रौ १४,
 ४: १६; हिथ्रौ; -खाम् लाथ्रौ
 ८, २, ३; कौगृ ३, २, २; शांथ्रौ ३,

२, ५; -खायाम् हिथ्रौ २४, ६,
 १४; वौगृ १, ८, ९.
 उदुम्बरा(र-अ)भाव - वे लाथ्रौ ८,
 २, ३.
 उदुम्बर^d - पागृ ४, १, ९९; २, ५३.
 औदुम्बरक - पा ४, २, ५३.
 औदुम्बरायण - पा ४, १, ९९;
 -णः या १, १; -णाः वौथ्रौ प्र
 ३५: २.
 औदुम्बरी - रः वौथ्रौ प्र ३१: ६.
 उदुम्बल^e - लम् अत्रा ३, ४, १;
 दंवि २, ३; -लौ आथ्रौ ६, १०,
 २०.
 उद्/उप्, उदोपीः शांथ्रौ १, ५,
 ९१.
 उद्-उह्य, °ह्यमान - उद्/वह् द्र.
 उद्-ऊष्मन्^f - ष्मसु कागृ उ ३९:
 १५.
 उद्/ऊह (वहने), उद्/हति काथ्रौ २,
 ७, २६; आपथ्रौ; उद्/हामि
 आपथ्रौ १२, १५, २; २१, २१;
 उद्/हेन् आपथ्रौ १३, १५, ११;
 १६, २३, ७; वौथ्रौ २०, ११:
 ७; ८; वाथ्रौ २, १, ६, १९;
 वैथ्रौ १८, १७: २५; हिथ्रौ ४,
 २, ६९; द्राथ्रौ ११, १, ४; लाथ्रौ
 ४, १, ४.
 उद्/ह्येते माथ्रौ ५, १, ४, १८.
 उद्-ऊह^g - हः वाधृथ्रौ ३, ६९:
 ३९; -हम् आपथ्रौ २०, ३,
 १६; हिथ्रौ १४, १, ३७; -हेन
 वाथ्रौ ३, ४, १, २६; आपगृ १७,
 १.
 उद्-ऊहन - ने वौथ्रौ २०, ११: ७.

a) विप. । बस. ।

b) षस. > समाहारे द्रस. ।

c) षस. उप. = अषकफल- ।

d) व्यप. । व्यु. ? ।

e) वैप १ निर्दिष्टयोरिह संनिवेशः द्र. ।

f) पाभे. वैप १, ९०४ h

द्र. । g) पाभे. वैप १, ९०४ k द्र. ।

h) विप. । बस. उप. = १ऊष्मन्- ।

i) = मार्जन-साधन- ।

उप. करणे घः प्र. ।

२उद्गाहमान^a-> औद्गाहमानि-

पाग २, ४, ५९; ४, १, ४१^b; २, १३८; -निः बौध्रौप्र ४७ : ३; गोष्ट ३, १०, ५; ११; जैष्ट १, १८ : ६.

औद्गाहमानी- पा ४, १, ४१.

औद्गाहमानीय- पा ४, २, १३८.

उद्-गिरत्- उद्√गृ (निगरणे) द्र.

उद्-गीथ-^c, य उद्√गै द्र.

उद्-गीर्ण- उद्√गृ (निगरणे) द्र.

उद्√गुर> उद्-गूरयित्- -ता विध ५, ६०.

उद्√गु> गृह्, उद्गृहति काश्रौ २, ७, २; बौध्रौ १, १ : १७; ६, १६; १६; उद्गृहेत् जैश्रौका ४५.

उद्-गृह- -डम् आपश्रौ २, ८, ४; भाश्रौ २, ८, ५.

उद्√गृभ्, गृह्, ग्रभ्, ग्रह्,

उद्गृह्णाति काश्रौ ५, ५, ७××;

आपश्रौ; उद्गृह्णति आपश्रौ १०,

२९, ७; भाश्रौ १०, २०, ७; वैश्रौ

१२, २१ : १; हिश्रौ ७, ३, २२;

जैश्रौ १४ : ३; उद्गृह्णीत् वैश्रौ

१७, १५ : २; उद्गृह्णीयात्

आपश्रौ १४, ३३, ४^d; बौध्रौ;

उद्गृह्णीयुः जैश्रौका १३६.

उद्ग्रभीत् बौध्रौ १, १९; १३†;

उद् (अग्रभीत्) अश्रौ ८, १^e†.

उद्-गृहीत- -तम् वैश्रौ १६, ६ :

२०; -तस्य आपश्रौ १३, ९, ९;

वैश्रौ १६, ११ : ७.

उद्-गृह्णत्- -ह्णत् काश्रौ १६, २, ७;

१७, ३, २; कौस् ५१, १; -ह्णत्तः

आपश्रौ ११, ६, ११; भाश्रौ २,

२, २, १८ : १९.

उद्-गृह्य काश्रौ ४, १४, १३; ८, ४, २; १७, ५, १४; आपश्रौ.

उद्-गृह्यमा (ण>) णा- -णायाम् अप्राय ३, २.

उद्-ग्रभण- > औद्ग्रभण^c- -णः

चाअ १६:९^d; -णानाम् शुअ १,

२४४; -णानि शाश्रौ ५, ४, १;

काश्रौ ७, ३, १३; १६, ४, ३०;

२०, ४, १; शुअ २, ६८; ३, १४.

औद्ग्रभणा(ण-आ)दि- -दि

काश्रौ १६, ४, ४५.

उद्-ग्रहण- -णम् हिश्रौ ७, ३, ४६.

औद्ग्रहण^c- -णम् बौध्रौ ६,

४ : ५; १०, १३ : ४; २१, ८ :

४७; वैश्रौ १८, ६ : १४; -णात्

बौध्रौ २४, ३३ : २०; -णानि

आपश्रौ १०, ८, ७; २०, ८, ५;

९; वैश्रौ १२, ८ : १; हिश्रौ १४,

२, २५; २६; -णैः आपश्रौ २०,

८, ८; हिश्रौ १४, २, २६.

उद्-ग्रहीष्यत्- -ष्यते भाशि

८८†.

†उद्-ग्रभ- पावा ३, ३, ३५;

-भः भाश्रौ १, ३, ४, ७; वाश्रौ

१, ३, ६, १; -भम् आपश्रौ

३, ५, ५; बौध्रौ १, १९; १५; भाश्रौ

३, ५, ९; वैश्रौ ७, ५ : ४; हिश्रौ

२, ४, ७; शुअ २, ३०५; -भेण

बौध्रौ १, १९ : १३.

‡उद्-ग्राह- पा ३, ३, ३५.

उद्-ग्राह^f- -हाः ऋप्रा २, २९;

-हाणाम् ऋप्रा २, ३३.

उद्ग्राह-पद्-वृत्ति^g- -त्तयः

ऋप्रा २, ३०.

उद्ग्राह-वत् ऋप्रा २, ३२.

उद्√गृ (निगरणे) उद्विरन्ति अप ७१, १४, ४.

उज्जगार बौध्रौ १८, ४७ : ५.

उद्-गार- -रे गौध १६, २०.

उद्-गिरत्- -रति अप ७२, २, ३.

उद्गिरन्ती- -न्ती वृदे ८, ३४.

उद्-गीर्ण- -र्णः अप ६९, १, ३.

उद्√गै, उद्गायति आपश्रौ १२.

२८, ८; २१, १७, ३; बौध्रौ

१६, ७ : १०; वाध्रौ ४, २६ :

२४; ६२ : ९; हिश्रौ १६, ४,

२१; जैश्रौ १९ : १५;

†उद्गायतु बौध्रौ १५, १७ : २२;

†उद्गाय बौध्रौ १५, १८ : ५;

आपश्रौ २०, १३, ८; वाश्रौ ३, ४,

३, ९; हिश्रौ १४, ३, १२; जैश्रौ

११ : ४^h; उद्गायेत् आपश्रौ

१५, १९, ११; भाश्रौ ११, २०,

७; द्राश्रौ ५, २, ५; लाश्रौ २, ६

२; ६, १०, १८; १०, ९, ५; निस्

१, ११ : १२; २, ९ : १६.

उद्गास्यति जैश्रौ १७ : १४ⁱ;

लाश्रौ ९, ९, १९†; उद्गास्यति

लाश्रौ ९, ९, २१; †उद्गासीत्

आपश्रौ २०, १३, ८; बौध्रौ १५,

१८ : १^j; २^k; हिश्रौ १४, ३, १२.

उद्-गातृ- पाउभो २, १, १४४;

-†०तः आपश्रौ १०, ३, १;

बौध्रौ; -†रि जैश्रौ १४ : १०;

द्राश्रौ ७, ३, २; लाश्रौ ३, ४, २;

-ता आश्रौ ४, १, ६; १०, ९,

२; †शाश्रौ; काठश्रौ १२४^l;

माश्रौ २, ३, ४, १९; -तारः

काश्रौ ३, ३, १८; ९, ५, १२;

आपश्रौ; -तारम् आश्रौ ५, २,

a) व्यप. । व्यु. ? । b) आगा° इति [पक्षे] भाण्डा., पासि. । c) = होम-, हविस्-, यजुद्-विशेष- ।

वैप १ द्र. । d) °आ° इति पाठः? यनि. शोषः । e) विप. । वैप १ द्र. । f) =संधि-विशेष- । g) मलो. कस. >

षस. । h) सकृत् ण्य इति पाठः? यनि. शोषः । i) °तारः इति पाठः? यनि. शोषः (तु. सप्र. माश्रौ २, ४, १९) ।

७; १०, ९, २; शांश्री; -तारौ
हिश्री १७, ६, ३५; -तुः आपश्री
५, ६, २३××; शांश्री; आपश्री
१२, २३, १३^३; माश्री २, ४, १,
२६^३; -तृभ्यः आश्री ५, १९, ४;
आपश्री १३, १४, १; बौश्री ६,
२७ : १३; ७, १ : २६; २० :
७; ८, १४ : १४; माश्री २, ५,
२, ८; वैश्री १६, १६ : ११;
हिश्री ९, ४, ८; -तृषु बौश्री १६,
४ : ९; भाश्री ३, १५, ६; हिश्री
१०, ८, ६; -तृणाम् काश्री ९,
६, ३३; ११, ३^३; आपश्री १२,
२३, १३^३; वैश्री^३ १५, ३० : ७;
१६, ५ : ; १४ : ३; -तृन्
आपश्री १०, १, ९; काश्रीसं ३३ :
१३; द्राश्री ३, ३, ८; लाश्री १,
११, १; २४; -त्रा काश्री १०,
६, २०^३; ७, ३; ५; आपश्री;
-त्रे शांश्री १७, २, ६; काश्री.
औद्गात्र^३ - पा ५, १, १२९^९;
-अम् अप्राय ३, ४; -त्रे काश्री
२५, १, ८; द्राश्री १२, २, १३;
लाश्री ४, १०, १३^१; -त्रेण
बौश्री २, ३ : १९; द्राश्री १४, १,
१; लाश्री ५, ५, १^१.
उद्गातृ-कर्मन्- -र्म द्राश्री १२,
२, ६; लाश्री ४, १०, ७.
उद्गातृ-चतुर्थे^३ - -र्थेभ्यः वैताश्री
३६, १५.
उद्गातृ-चमस- -सम् लाश्री ९,
२, ३; मीस् ३, ५, २४; -से
बौश्री २५, १९ : १५; २६, २ : ८.
उद्गातृ-प्रथम^३ - -मान् वैश्री १२,

१ : ५.
उद्गातृ-प्रस्तोतृ- -तारौ लाश्री
१०, १२, १६.
उद्गातृ-योग- -गात् काश्री २२,
२, १४.
उद्गातृ-वत् काश्री १०, ७, २.
उद्गातृ-वरण-क्रम- -मः जैश्रीका
१५.
उद्गातृ-विकार- -रः लाश्री १०,
९, १.
उद्गातृ-वीक्षण- -णम् जैश्रीका
१९३.
उद्गातृ-होतृ-प्रत्यय^३ - -येन
वैश्री २१, ४ : ७.
उद्गातृ-होम- -मः काश्री २५,
६, ६.
उद्गात्र(तृ-अ)पच्छेद- -दः
काश्री २५, ११, ८; १३.
उद्गात्रा(तृ-आ)न्त्र^३ - -न्त्रः
विध १, ६.
उद्गात्रा(तृ-आ)सन्दी-वत्
काश्री १६, ५, ५.
उद्-गायत्- -यन् द्राश्री ६, २, ३;
लाश्री २, १०, ३.
†उद्गायन्ती- -न्तीम् आपश्री
२०, १३, ८; वाश्री ३, ४, ३, ९;
हिश्री १४, ३, १२.
उद्-गीथ^३ - पाउ २, १०; -थः
आपश्री २०, १३, ७; २१, १०,
४; बौश्री १५, १७ : २८; १८,
२४ : २१; २१, ७ : ४; हिश्री
१४, ३, १२; द्राश्री ३, ४, ८;
-थम् आपश्री ५, १६, ८; माश्री
२, ५, २, २२; वैश्री १, १३ :

११; -थाय आपश्री २०, १३,
५; हिश्री १४, ३, १२; -थेन
आपश्री १७, १०, १; वैश्री १९,
६ : १५.
उद्गीथा(थ-आ)दान- -नम्
लाश्री ६, १०, १३.
उद्गीथा(थ-आ)दि- -देः
लाश्री ९, ७, ५; -दौ जैश्रीका
१७८; द्राश्री १५, ४, ७; लाश्री
५, १२, १४.
उद्गीथादि-शान्त्य(न्ति-
अ)र्थ^३ - -र्थः निम् २, १३ : ४२.
उद्गीथो(थ-उ)पद्मव^३ - -वौ
वृदे ८, १२२.
उद्-गीथ लाश्री १०, ९, ४^३.
उद्✓ग्रथ्, न्थ्, उद्ग्रथाति कौस्
२९, ४; ४७, ४९.
उद्-ग्रथत्- -अन् कौस् १९, १२.
उद्-ग्रथ्य आश्री १०, ८, ८; आपश्री
१४, १३, ७; २२, १, २; २०, १७,
१३; १४; माश्री.
उद्✓ग्रभ्, उद्-ग्रभण-, उद्✓ग्रह्
प्रभृ. उद् ✓ग्रभ् द्र.
उद्-घ- उद्✓घ(<ह)न् द्र.
उद्✓घट् > उद्-घाट- -टे भाट् ३,
१३ : १०.
उद्-घन- प्रभृ. उद्✓घ(<ह)न् द्र.
उद्✓घृप्, उद्घर्षयेरन् शंघ ३४४.
उद्-घर्षण- -णम् शंघ ९९; ३४२.
उद्-घृष्ट^३ - -ष्टम् याशि १, २८;
नाशि १, ३, ११.
उद्-घृत्- उद्✓घ(<ह)न् द्र.
१ उद्-दण्ड^३ - > ण्ड-संबृत्त^३ - -न्ताः
वैघ १, ८, १.

- a) पामे. वैप २, ३खं. उद्गातृणाम् माश ४, २, १, २९ टि. द्र. । b) विप. । तस्येदमीयः अण् प्र. ।
c) भाप., नाप. । d) उद् इति पाठः? यन्ति. शोधः (तु. द्राश्री.) । e) विप. । बस. । f) द्रस. > बस. ।
g) वैप १ द्र. । h) विप. । बस. > बस. । i) द्रस. उप. = साम-भक्ति- । j) = पाठ-दोष- । k) प्रास. ।
l) = [अपनीक-] वानप्रस्थ-विशेष- । तुस. ।

२उहण्ड^a - (>बौहण्डक^b - पा.)

पाग ४, २, ८०.

उद्-ण्डक^c - कः वैध १, ७, ८.

उद्/दस् > उद्-दासिन्- पाग ३,
१, १३४.

उद्/दह > उद्-दाह- हे बौश्री
२७, २ : १३; बौग ४, ९, ४.

उहालक^d - कः बाधुश्री २, १३ : ५;
अग्र ३, २९; ६, १५; -कम् वैग
२, ३ : ७.

बौहालकि- -किः बौश्रीप्र २७ :
४; साअ २, ११७८; ११८१.

उहालक-ऋषि- -वेः अग ५२,
१६, २.

उहालक-प्रायश्चित्त- -त्तम् वैग २,
३ : ५; ६, ७ : ६.

उहालक(क-ऋ)र्षि-पुत्र- -त्राः अग
५२, १३, ३.

उहालक-व्रत- -तम् बाध ११, ७६.

उद्-दास^e - (>उहास-वत्-
२उहासिन्- पा.) पाग ५, २, १३६

उद्/दिश, उदिसति शांश्री २, ९,
१४; आपश्री ६, १२, ७; बौश्री;
उदिसोत् निस् ७, ४ : २४; कौग
३, ११, ८; शांग ४, १२, १०.

† उद्-दिश^f - -दिशः बौश्री ४, ९ :
२७; वैश्री ८, ७ : १०; हिश्री
४, ५, २४; जैश्री ११ : ८; सु
२१, २६; आग २, ४, १४^g.

उद्-दिश्य शांग १, २, ७; पाग ३,
१०, ४९; वैग.

उद्-दिष्ट- -ष्टम् अग २७, २, ५; ३०^h,
१, ९; बौध १, १०, ३१; -ष्टा-
नाम् नाशि १, ८, ११.

उद्विष्ट-साक्षिन्- -अग्नि विध

८, १२.

उद्-देशⁱ - -शः शांश्री १, १, ११^h;

बौश्रीप्र २ : २^h; ऋअ १, ३, ९;

शुअ ५, १०; या १२, ४०; याशि

१, ५२; -शात् बौश्री २०, २६ :

६; -शेन बौश्री २, ६ : ५; १२;

लाश्री ६, ४, ६.

बौहेशिकⁱ - -कम् या १, ४.

उदेश-तसः (:) विध ५, १९३.

उद्-दीक्षा - -क्षाम् माग १, २३, ४;
१३; १९.

उद्/दीप्, उदीप्यस्व आपमं १, ९, ९;

आमिग २, ४, १० : १९; बौग.

उदीपयति कौसू ७०, ४; ८६,

१८; उदीपयामि अप्राय २, ५.

उद्-दी(पक >)पिका- -काः अग
६७, २, १.

उद्-दीप्य वैग ५, ७ : १२; ६, १ :

१५; कौसू ७२, ३५.

उद्/दृश > उद्-दृष्ट- -ष्टः भाशि

१८; -ष्टे आपश्री ८, २१, ३;

१८, २२, १५.

उद्/दृ > उद्-दीर्ण- -र्णम् या ३,
२०.

उद्/द्युत्, उद्योतयन्ति अग ६५,
२, १.

उद्-द्योत(न >)नी- नी अग ५८,

१, ११.

उद्-द्योतय(त् >)न्ती- न्ती अग

५८^h, २, ४.

उद्/द्व, उद्द्वनि आपश्री ६, ८,

६××; बौश्री; उद्द्वत् वाधुश्री

४, २६ : २७××; उद्द्वेत् बौश्री

१४, २३:३०; भाश्री; उद्द्वेयुः

हिग १, १४, ४.

उद्-द्वत्- -वन् आपश्री ६, ८, ७;

भाश्री ६, ११, १०; हिश्री ३, ७,

५६; -वन्तम् हिगि ७ : ७.

उद्-द्राव- पा ३, ३, ४९; -वान्ⁱ
आपश्री २०, ६, २; ११, २.

उद्-द्रुत, ता- -तम् भाश्री ९, ३, ८;

बाधुश्री ४, २८^h : २; -तस्य

आपश्री ९, ६, १; बौश्री; -तः

बाधुश्री ४, २८^h : ४; -ताम्

बाधुश्री ४, २८^h : ३; -ते बौश्री

७, ८ : १४; ८, २ : २२; ११ :

१०.

उद्-द्रुत्य आपश्री ९, ६, ११, बौश्री

३, ५ : १९; शांग ४, १७, ५.

उद्/घ(<ह)न, उद्वन्ति आपश्री

१०, १०, १; २२, १०, १७;

बौश्री; उद्वन्ति आमिग १, ५,

२ : ८; †उद्(हन्तु) कौग १,

९, १६; शांग १, १५, २०; कौसू

७७, १५; †उद्... हतम् ऋग्रा

४, ६९; शैशि २२२; उद्वन्यात्

बौश्री १३, १८ : ११; २१,

९ : १६; २६, ५ : २७.

उज्जहि > °हि-जोडम्^k, °हि-स्त-

म्बम्^k पाग २, १, ७२.

उद्-घ- पा ३, ३, ८६.

उद्-घन- पा ३, ३, ८०.

उद्-घात- -ते नाशि २, २, १३.

†उद्-घत्- -घन्तः आपश्री ४, ५,

५^h; भाश्री ४, ७, १^h; वैश्री ५,

१ : २; हिश्री ६, २, ४^h!

उद्-घत, ता- -तः बौश्री ५, ५ :

२४; विध ७१, ७; अप्रा ३, ४,

१^h; -तम् बौश्री २, ९ : ३;

भाश्री १, १, २, ९; -ता आपश्री

a) अर्थः व्यु. च ?।

b) = देश-विशेष- ?।

c) विप. (फेलप-)। बस.।

d) वैप १ द.।

e) पाभे. पृ ५१७ ७ द.। f) भाप.। गस.। g) = आम्नाय- [पक्षे]। h) = ऋषि-विशेष-। i) तत्र भविकृ

उक् प्र.। j) = आहुति-विशेष-। k) °उः, °म्बः इति पाका.। l) उद्- इति पाठः ? यनि. श्लोचः।

८, १३, ४; -ताः आपश्री १,
८, ७१; -तात् बौश्री ४, २ :
२×४; माश्री १, २, ४, १७;
-ताभ्याम् बौश्री ५, ५ : २४;
-तायाम् काश्री २१, ३, ७; -ते
काश्री ७, ९, ४; आपश्री; हिग्य
१, २६, ६६.
उद्धत-कुहक^१ -कैः शंख ६३.
उद्धत-तर- -रः या २, ११; -रम्
या ६, १९.
उद्धता(त-अ)न्त- -न्ते आगृ ४,
२, ११.
उद्धता(त-अ)वोक्षित^२ -ते शाश्री
१८, २४, २७; काश्री ५, ४, १७;
८, ५, २५; ६, १२; १६, ३, १३; ६,
२१; २६, १, १४; शागृ १, ५, ३;
५, १, ७; पागृ १, ४, ३; २, १७, ८.
उद्धतौ (त-अ)पधि-मूल^३ -ले
काश्री ७, १, १४.
उद्-धत्य आपश्री १, ७, १३×४;
बौश्री; आमिगृ २, ७, २ : १४^४.
उद्-ध(त्य>)त्या^५ -त्या आपश्री
८, १३, ५^५१.
उद्-धनन- -नम् बौश्री १४, २१ :
३६.
उद्धनना(न-अ)न्त, न्ता^६ -न्तम्
हिश्री ५, ४, ७; -न्ताम् माश्री
८, १५, ५.
उद्-धन्यमान, ना- -नम् आपश्री
५, ४, १; बौश्री; -नाम् आपश्री
४, ५, ५; माश्री ४, ७, १; वैश्री
५, १ : २; हिश्री ६, २, ४.
?उद्धननाद्यसंभारसंभरणान्^७

आमिगृ १, ६, १ : ९.
उद्/धम्>उद्धम्>०म-चू(ड>)
डा- उद्धर-चूडा- टि. द्र.
उद्धम-विघ(म>)मा- पाग २, १,
७२.
उद्-धरण-, ०रत्-, ०रिष्यत्-, ०रैवै
उद्/धृ<ह)द्र.
उद्-धर्षिन्- उद्/धृ<ह)प् द्र.
उद्/धा, उद्...दधे शागृ ६, ४,
१३; ऋउद्...धेहि^८ आपश्री
२०, १८, ४; हिश्री १४, ४, १०;
ऋउद् (धेहि)अप ४६, ५, ३^९;
अपं ३ : ३४^९; अअ ४, ४.
उद्-धि^१ -धिः वाधूश्री ४, १०६ :
१; -धिम माश्री ६, १, २, ८;
-धीः माश्री ६, १, २, ७.
उद्/धा(<ह)ा [गती]), उज्जिहीते
काश्री १४, ५, १०; ऋया ५, २११^{१०};
उज्जिहते मागृ २, ७, ५; ऋउद्
...जिहते आमिगृ ३, ८, २ : १६;
बौपि १, १५ : २६; उज्जिहताम्
बौश्री १०, ३ : २१.
उद्/धा(<ह)ा [त्यागे])>उद्-
धाप्य बौश्री ४, ६ : ४१.
उद्-धार- प्रसृ. उद्/धृ (<ह)
द्र.
उद्/धृ>उद्-धव^१ -वम् वाश्री
१, ७, ४, २१; -वात् माश्री १,
७, ६, १९; -वान् माश्री १, १,
२, १०; ३३; -वेषु माश्री १, १,
२, १९.
भौद्धव^१ -वः^१ आपश्री ८, १४,
६; २२, ४, २०; -वान्

आपश्री ८, १४, ५^{१०}.
उद्-धावम् माश्री १, १, २, १०;
७, ६, १९.
उद्-धृन्वत् -न्वन् बौश्री ९, १८ :
२६.
उद्-धृय माश्री १, २, १, १; ७, ६,
१८.
उद्/धूप, उद्धूपयति हिगृ २, ३, ७.
उद्-धूपन- -नम् आमिगृ २, १, ४ :
२४; -नात् आमिगृ २, १, ३ :
११; हिगृ २, ३, ६.
उद्/धृ(<ह), उद्धरति शाश्री
२, ६, २×४; काश्री; उद्धरन्ति
काश्री २०, ७, ७; बौश्री; उद्...
हरन्ति बौश्री ८, १९ : ८^१;
ऋउद्धरामि आश्री २, २, २;
आपश्री ६, १, ६; बौश्री ३, ४ :
६; २४, ३० : ८; भाश्री ६, ७,
५; माश्री १, ६, १, २; वाश्री १,
५, २, ३; हिश्री ३, ७, ५; उद्धरामः
निस् ७, ५ : १२; ऋउद्धर आश्री
२, २, ३; शाश्री; या ६, ३;
उद्धरन् वाधूश्री ४, १९ : ३९;
उद्धरेत् आश्री २, २, १×४; शाश्री;
उद्...हरेत् शाश्री १८, ७, १७;
उद्धरेरन् बौश्री १६, ६ : १०;
उद्धरेयुः आश्री ११, ७, १८;
माश्री ६, ८, ४; वाधूश्री ३, ९ :
२; ३; ५; अप्राय ४, ३; हिश्री
१५, २, २०.
उज्जभार बौगृ ३, ७, १४;
उज्जहार शाश्री १६, १६, ४;
ऋआमिगृ २, ५, ३ : १५; ७, ३ :

a) सपा. उद्धते <> उद्धत्य इति पाभे. । b) द्रस. उप. = कपटिन्- । c) तस. (पा २, १, ४९) ।
d) विप. । बस. > द्रस. । e) विप. । उप. कर्मणि क्यप् प्र. उर्सं. (पा ३, १, १०८) । f) विप. । बस. ।
g) पाठः ? णादि, णा, संभार-संभरणात् इति त्रि-पदः शोचः । h) पाभे. वैप १, ९०८ e द्र. । i) वैप १ द्र. ।
j) = [आस्तरणार्थमुद्धूयमान-] बर्हिस्- । कर्मणि अप् प्र. । k) तस्येदमीयः स्वार्थिश्च अण् प्र. । l) विप.
(पथोक्तबर्हिषः अवशिष्ट-भागमय-] प्रस्तर-) । m) नाप. ।

९; ३, १०, २ : १७; विध १, २;
उद्धरिष्यामि हिंघ २, ५, ४६१;
उद्-... अहार्यम् अत्र ८, ७.
उद्धियते वाधूश्रौ ३, ९ : १९;
उद्धियताम् बौघ २, ११, २३^११;
आपध २, १७, १८; १९; हिघ २,
५, ४७.
उद्धारयति आमिघ २, ५, ८ : ६;
उद्धारयन्ति आमिघ ३, २, ५ :
९; ५, ५ : ६; बौपि १, ४ : ६;
हिपि १३ : ५; उद्धारयेत् द्राघ
३, ४, ९; १४.
उज्-जिहीर्षत्- -र्षन् वाध १४, १३.
उज्-जिहीर्षु- -र्षुः विध ५७, १३.
उद्धर > र-च् (ड >) डा^१-, -रा-
(र-अ)वसृजा-, -रो(र-उ)त्सृजा-
पाग २, १, ७२.
उद्-धरण- -णम् शांश्रौ ३, १९. ९;
१०; काश्रौ; -णात् हिश्रौ ३, ७,
१०; -णे आपश्रौ ७, १२, ९;
बौश्रौ २३, ११ : ३; -णेन
वाधूश्रौ ३, ९ : २१.
उद्धरण-प्रभृति- -ति हिश्रौ ६,
६, ५.
उद्धरण-मन्त्र- -न्त्रः बौश्रौ २४,
३० : ६; ७.
उद्धरण-सामर्थ्य- -र्थ्यात् काश्रौ
४, १, ९.
उद्धरणीय- -यम् बौपि २, ९, २.
उद्-धरत्- -रन् बौश्रौ २४, ३० :
३; ४; भाश्रौ ५, ७, १२; शंघ
३९०; -रन्तम् कौस् ६४, १६.
उद्-धरिष्यत्- -ष्यत्सु द्राश्रौ १२,
१, १८; लाश्रौ ४, ९, १२.
उद्-धर्तवै आपश्रौ ६, ३१, १; ९.
उद्-धार- -रः आश्रौ ९, १, १६;

१२, ४, १८; द्राश्रौ ८, २, २६;
लाश्रौ ४, ६, १७; निस् ८, १० :
३; १३ : ९; गौघ १०, २१;
-रम् लाश्रौ १०, १७, ११; विध
१८, ३७.
उद्धारा(र-अ)वतार- -रयोः वैघ
५, २ : २१.
उद्-धार्यै वैघ ४, १ : ३; कौस् ८१, २२.
उद्-धार्य- -र्यम् आपध २, १२,
२३; हिघ २, ४, ६०.
उद्-धत्, ता- -त्तः आश्रौ २, २, ३;
शांश्रौ; -तम् बौश्रौ १४, २९ :
२४; माश्रौ; या ३, २०; ८,
१५; पा ४, २, १४; -तयोः
वैश्रौ ९, २ : ९; -ता शांश्रौ
९, ३, ४; विध १, १२; ४५; अप्रा
३, ४, ११; -ताः बौशु १३ :
५; -तान् आपश्रौ ८, १०, ९;
काठश्रौ २०; भाश्रौ ८, १२, ४;
वैश्रौ ९, २ : ७; विध ६४, १७;
७१, ६३; -तानि काश्रौ १७,
१२, ११; आपध २, ६, १७; हिघ
२, २, १८; -ताभिः गोग ३, २,
५२; वाध ६, १४; बौघ २, ६,
२७; विध ६०, २४; -ते काश्रौ
२५, ३, ३; बौश्रौ २७, ४ : ८; ११;
वैश्रौ २०, १६ : १; भाग ३, १ :
६; कौस् ६२, ७; ६८, २३; -तेषु
आपध २, ७, १५; मैत्र २८; अत्र
१५, १२१; अप्रा ३, ४, ११; -तैः
वैध २, ९, ५; -तौ काश्रौ ५, ६,
१४.
उद्-धत्-तेजस्^१- -जांसि कौघ
३, ११, ३९; शांघ ४, ११, ८.
उद्-धत्-दोष^१- -षाणाम् शंघ
१७६.

उद्-धत्-पूर्वफलक^१- -कम् भाश्रौ
१०, १६, ४; -केन आपश्रौ १०,
२४, २; हिश्रौ ७, २, ३६.
उद्-धत्-फलक^१- -कम् बौश्रौ
६, १० : ४; २१; २४ : १५;
वैश्रौ १४, ५ : ९.
उद्-धत्-बृहद्वयन्तर^१- -रे शांश्रौ
११, १४, ८; २२.
उद्-धत्-स्नान- -नम् सुध ५४.
उद्-धत्-स्नेह^१- -हम् अप ४६,
१, ५; विध ६८, २७.
उद्-धत्-स्नेह- -विलयन-पि-
ण्याक-मथित-प्रभृति^१- -तीनि
गौघ ९, ५८.
उद्-धत्तो(त-उ)इक^१- -केन गौघ
९, ११.
उद्-धय आश्रौ ५, ४, ४××; शांश्रौ;
लुसू ३, १२ : १०^१।
उद्-धियमाण, णा- -कणः आश्रौ
२, २, ३; शांश्रौ; -णम् आपश्रौ
६, १, ७; हिश्रौ ६, ६, ४; -णा
अप्रा ३, ४, ११; -णे आपश्रौ
५, १४, ४; ६, ९, ११; भाश्रौ ५,
७, ११; ६, ७, ६; वाश्रौ १, ४, ३,
२९; वैश्रौ २२ : ८; -णेषु निस्
२, १२ : २९.
उद्-धृ (<√ह)ष्^१, उद्धर्षन्ताम्
वैताश्रौ ३४, १६; अत्र ३, १९.
उद्धर्षय सात्र २, १२०८.
उद्-धर्षिन्- -र्षिणम् अत्र ८, ६;
अपं ३ : ४३.
उद्धय- पा ३, १, ११५.
उद्-धृ/बध्, न्ध् > उद्-बद्ध- -द्धम् शंघ
४४०.
उद्-बन्धन- > न-पाशछेदन-
वहन- -नेषु सुधप ८६ : ११.

a) तु. पाका. प्रभृ. । 'द्धम' इति [पक्षे] भाण्ड. । b) विप. । दस. । c) कस. > दस. > बस. ।
d) 'दस्य इति पा. : १ नि. शोषः । e) अप्रा ३, २, १ परामृष्टः द्र. ।

उद्बन्धन-मृत- -तस्य विध २२,
५८.

उद्बन्धक^a - कः वैध ३, १५, १७.

उद्बर्हिस्^b - -र्हिः माश्रौ ५, १, ९, १८.

उद्बस्स्यो^d वाधूश्रौ ४, २९^c : १.

उद्बाल^e - > ०ल-वत्^f - वान् शुभ्र
१, १३५.

उद्बाहु^g - -हवः जैश्रौका १२८.

उद्बुध्, उद्बुध्यस्व आपश्रौ ३,
१३, १; ६, १, ३; ९, ८, ७; बौश्रौ;
उद्बुध्यध्वम् ऋअ २, १०,
१०१^h; उद् (बुध्यध्वम्) बृदे
८, १०^h.

उद्बोधयति भाश्रौ ६, ७, ४.

शुद्बोधयेयुः अप्राय ४, १^f.

उद्बु, उद्बुवते आपश्रौ १८, १९,
२; बौश्रौ १२, १५ : १६; २१.

उद्बुर्त्स, उद्बुर्त्सत शाश्रौ १२,
२३, १^h.

उद्भारⁱ - > औद्भारि^j - -रिः वाधूश्रौ
३, ४६ : ३; -रेः वाधूश्रौ ३,
४६ : १५.

उद्भास् > उद्भास^k -

(> उद्भास-वत्, उद्भासिन्-
पा.) पाग ५, २, १३६.

उद्भासिन्- पाग ३, १, १३४.

उद्भिद्, उद्भिन्नति बौश्रौ १८, ३१;
१०; उद्भिन्नत्सि आमिष्ट ३, ७,
२ : ८; बौपि १, १७ : २८; हिपि
१२ : १; उद्...भिन्नदत्,
उद्(भिन्नदत्) आपमं २, ११,

२९^h; उद्भिन्नदन्तु आमिष्ट
३, ७, २ : ८; बौपि १, १७ : २८;
उद्भिन्नत् बौश्रौ १८, ३१ : १०;
उद्...भिन्नः आपश्रौ २२,
१५, ११^h; बौश्रौ १६, २५ : ३;
हिश्रौ १७, ६, २६.

उद्भिद्^l - -भिन् बौश्रौ १८,
३१ : ६^h; -भिदः बौगृ १, ३,
३५^h; -भिदम् शाश्रौ १४, १४,
१; -भिदा शाश्रौ १४, १४,
१; आपश्रौ २२, ११, २०; हिश्रौ
१७, ५, १२; -भिदि बौश्रौ २३,
१९ : ३४; २६, ८ : ४; लाश्रौ
६, ३, ५; -भिदे बौश्रौ १८, ३१ :
७; ८^h.

उद्भिद्^m - -दम् आमिष्ट
१, ३, ४ : ८^h; हिगृ १, १०, ६.

उद्भिद्यⁿ - -द्यम् आपश्रौ
१८, १९, ५^h; बौश्रौ १७, ४१ :
१४^h; १८, ३१ : १-४; आपमं
२, ८, १^h; भागृ २, २१ : १३^h.

उद्भिद्-बलभिद् - -भिदोः
शाश्रौ १४, ११, १०; वैताश्रौ
३९, १३; -भिदौ आपश्रौ ९, ८,
१७; १२, १, ५; शाश्रौ १३, २१,
१०; काश्रौ २२, १०, २१; २४,
४, ८; निस १०, ६ : ५;
-भिद्भ्याम् आपश्रौ २२, ११,
१९; २३, ९, ७; हिश्रौ १७, ५,
११; १८, ३, ११; लाश्रौ ९, ४, ९.

उद्भिद्य आपश्रौ १९, १, १८; वैश्रौ

११, २ : १३; हिश्रौ १३, ८, १७.
उद्भिन्द (त >) ती- . तीम्
कौस् ४१, १३; अत्र ४, ३८.

उद्भिन्न- -न्नम्^o बौश्रौ १२, १५ :
१९; वाश्रौ ३, ३, २६; हिश्रौ
१३, ६, २९.

उद्भेत् > औद्भेत्^p - -त्राय वागृ
५, १३^h.

औद्भेत्त्रिय^q - -त्राय आपश्रौ ६,
२०, २^h.

उद्भू, उद्भूयासम् आपश्रौ
६, ६, ८; भाश्रौ ६, १०, ६;
माश्रौ १, ६, १, १७; वाश्रौ १,
५, २, १८; हिश्रौ ३, ७, ३०;
उद् (भूयासम्) वैगृ १, १२ : ७.

उद्भाव- उद्भाव- टि. द्र.

उद्भु^r - -भवः आपश्रौ ६, ६, ८;
भाश्रौ ६, १०, ६; माश्रौ १, ६, १,
१६; वाश्रौ १, ५, २, १८; हिश्रौ
३, ७, ३०; वैगृ १, १२ : ७; चाअ
६ : १.

उद्भूव- -ताः वैध ३, ११, ३.

उद्भृ^s = ह, उद् (भरन्तु) काश्रौ
१६, ६, १६; १८, ३, १८; आपश्रौ
५, १३, ४; १६, १२, ४; बौश्रौ
१०, १७ : ४; ५१ : २४; माश्रौ
६, १, ४, २७; २, ५, ५; वाश्रौ २,
१, ३, २६; वैश्रौ १, १२ : ३;
१९, ६ : ७९; हिश्रौ ३, ४, १६;
११, ५, १; १२, ५, २; शुअ
२, ९६; चाअ १६ : १६;

a) = (खनकात् [वैध.], सूनिकात् [औशनस-धर्मशास्त्रम् १५], नृपायां [वैतु. C. विप्रायाम्?] जात-) वस्त्रनिर्लेजक- । b) मृद् इति रज्ञा । c) विप. । बस. । d) पाठः ? । उल्ब- > -ल्बस्य, उ इति संस्कृता । e) = ऊर्ध्व-केश- । प्रास. । उद्भा इति उ. म. (मा २, १९) । f) = ऋषि-विशेष- । व्यु. ? । g) पाठः ? । सपा. माश्रौ ३, १, ९ धयेयुः इति पाठे. । h) पाठे. वैप १, ८९५ ८ द्र. । i) वैप १ द्र. । j) उद्भाव- इति पाका. । k) 'नत् इति पाठः ? यनि. शोधः (तु. बौश्रौ. हिश्रौ.) । l) विप., नाप. (सत्र-विशेष-, साम-विशेष-) । m) पाठे. वैप १, ९१० m द्र. । n) उ इति पाठः ? यनि. शोधः (तु. सपा. मा ३४, ५०) । o) पाठे. वैप १, ९१० ० द्र. । p) परस्परं पाठे. । q) ताद्वितः षष् > इयः प्र. उर्त्स. (पा ५, १, १२९) । r) वैप १, ९१०. 1 द्र. ।

उद् (भर) कौट २, १, ३५१;
 उद्भराम कौसू १३९, २६१.
 उद् (विभक्ति) आपथौ १५,
 १७, ५; वौश्रौ ९, १७ : ३६;
 माथ्रौ ११, १७, ५; माथ्रौ ४, ५,
 १०; वैश्रौ १८, १७ : ४६.
 उद्-भृष्टि^०- -ष्टिः आपथौ २२, १५,
 १०; हिश्रौ १७, ६, २६.
 उद्/भ्रम् > उद्-भ्रान्त->
 ंन्त-यूयप^०- -पाः अप ६८, १,
 ४६.
 उद्/यच्छ, यम् (बधा.)^०, उद्यच्छते
 आपथौ १, ४, १५; १८, १४,
 १४; वौश्रौ; उद्यच्छति काथ्रौ ५,
 ४, १३; १६, ४, २१; आपथौ;
 उद्यच्छतः माथ्रौ १, ७, ३, ३९;
 उद्यच्छन्ते वौश्रौ ४, २ : ३९;
 ६, ३० : १९; वैश्रौ १५, ३६ : ७;
 उद्यच्छन्ति काथ्रौ ९, ११, २६;
 १९, ४, २२; ँ उद्यच्छे आपथौ १,
 ४, १५; ५, १३, ४; वौश्रौ १, २ :
 २१; २, १७ : १८; माथ्रौ १, ४,
 १६; ५, ७, १०; माथ्रौ १, १, १,
 ४७; वाथ्रौ १, २, १, २७; वैश्रौ
 १, १२ : २; हिश्रौ १, २, ५२;
 ३, ४, १६; उद्यच्छ काथ्रौ १८,
 ३, १६१; उद्यच्छध्वम् कौसू
 ७६, ३२; उद्यच्छत् वाध्रौ ४,
 २ : ३; उद्यच्छन् वौश्रौ २५,
 ७ : १; उद्यच्छेत् वाथ्रौ १, ३, २,
 ८; अप ५०, १, ४; विध ७१,
 ८०.
 ँ उद्... यंसते आपथौ ५, ६, ३;
 हिश्रौ ३, २, ५६.
 ँ उद् (ययाम) ऋअ २, ७, ३८;
 वृदे ५, १६७; ँ उद्... येमिरे

या ५, ४; ५; उद् (येमिरे) भाशि
 ६१.
 ँ उद् (अयंस) आपथौ ४, ७, ४;
 ७, ४, १२; ९, ५, ५; शाथ्रौ ५,
 १०, १२; १०, ४, १४; १४, ३,
 १२; ऋअ २, ६, ७१; उद्
 (अयान्) ऋपा २, ७११.
 * उद्-यच्छमान- -नात् कौसू ४९,
 १२.
 उद्-यत्, ता- -तः वौश्रौ ९, १७ :
 १६; -तम् आपथौ ५, १३, ६;
 माथ्रौ ५, ७, १४; माथ्रौ २, १,
 १, ७; वाध ११, ४१; वृदे ६,
 १२; -तस्य वृदे ६, १२३; -ता
 वाध १४, १९; -तानाम् वाद्य
 ११, ७^०; -ताम् वाध १४, १६;
 आपथ १, १९, १३; हिध १, ५,
 ११५; -ते काथ्रौ १२, २, १;
 वाथ्रौ १, ६, २, १; ऋअ २, १,
 १७०; -तौ आपथौ १८, १४,
 १६.
 उद्यत्-बाहु^०- -हुम् वाथ्रौ ३,
 ३, २, ४१.
 उद्यत्-होम- -मम् आपथौ ७,
 ६, ५; ८, १, ६; माथ्रौ ७, ४, ७;
 वैश्रौ १०, ५ : ७; -मौ आपथौ
 ८, ५, २३.
 उद्यता(त-अ) सि^०- पाग २, २,
 ३७.
 उद्यता(त-अ) सि-विषा (ष-अ)
 मि^०- -मिम् विध ५, १९१.
 उद्-यत्य आमिष्ट १, ६, ३ : १३.
 उद्-यन्तुम् वौश्रौ १८, ३३ : १३१.
 उद्-यम्- पाग २, ४, ३१; -मः
 याशि २, १०७; नाशि २, ८, २१.
 उद्-यमन- -नात् माथ्रौ ५, १९, ७.

उद्-यमन-निपातन- -नानि
 पावा १, ४, २३.
 उद्-यम्य आपथौ ५, ७, २; शाथ्रौ.
 उद्-यम्यमान- -ने शाथ्रौ ५, १०,
 १२.
 उद्-यत्- प्रभृ. उद्/इ द्र.
 उद्यमान- ✓ वद् द्र.
 उद्/या > ँ उद्-यान^०- -ने
 आपथौ १३, २०, १; वौश्रौ ३, ५,
 १८.
 उद्-यान^०- पाग २, ४, ३१; विध
 ६०, १४.
 उद्यानो(न-उ) दक-समीप-
 -प्रयोः विध ६०, १५.
 उद्/यु, उद्योति आपथौ २, ८, ५;
 ३, ७, ३; १०, ६, ११; वौश्रौ १,
 १९ : २५; माथ्रौ ३, ६, ६; वैश्रौ
 ७, ६ : ७; ९; हिश्रौ १, ७, ६३.
 ? उद्युग्महि कौसू ४७, १६१;
 अप ३७, १, ८.
 उद्यु-याव- पा ३, ३ ४९; १२२;
 पाग ४, ३, ७३.
 औद्याव- पा ४, ३, ७३.
 उद्-युत्य वौश्रौ ३, ९, १२.
 उद्/युञ्, ँ उद्... युजे आपथौ १६,
 १८, ४^०; वैश्रौ १८, १५ : ११;
 हिश्रौ ११, ६, २६; उद् (युजे)
 माथ्रौ ६, १, ५, ३५१.
 उद्युञ्जीरन् लाथ्रौ १०, १६, ६;
 ८.
 ँ उद्-युञ्- -युजे काग ९, ३; माग
 १, ४, ३; वाद्य ८, ४.
 उद्-युज्यमान- -नाथ वाद्य ८, ४१.
 उद्-योग पाग २, ४, ३१.
 उद्-योजन-> ंना(न-आ) दि-
 -दिभिः वैश्रौ १८, १५ : १५.

a) विप. । बस. । b) पा १, ३, ७५ परामृष्टः द्र. । c) विशेषः पागे. च पृ ६६७ a द्र. । d) विप. ।
 बस. > द्रस. । e) उप. भावे ल्युट् प्र. । f) = उपजन- । उप. अधिःकरणे ल्युट् प्र. । g) वैप १, ९, १२ p द्र. ।

उद्/युष्, उद्योयन्ति कौसू ६१, ३०१.

उद्युध्यन्ते अप ६१, १, ११.

१, २ उद्- ✓ उद् द.

† उद्/रिष्, उद्... रिच्यते आश्रौ
५, १६, २; शांश्रौ ७, २४, ३;
१२, ४, २२; १८, ८, १०; वैताश्रौ
३३, २४; उद् (रिच्यते) अत्र
२०, ५९.

उद्-रिक्त- -क्ते आश्रौ २, ७, २१.

उद्-रेक- -कान् आपश्रौ १४, ७, ९;

-क्रेण आपश्रौ ७, २५, ११; ८,

३, १२; हिश्रौ १४, ४, ४१.

उद्/रुष्, उद्... रोचते हिश्रौ ३, २,
५३१.

उद्/रुष् > उद्-रुज्य माश्रौ ५, १,
८, १३; वाश्रौ ३, ३, १, ११.

उद्/रुष् > उद्-रोहण- -णम् काण्ड
६०, ९; माण्ड २, ७, ६१^६.

उद्/वंश-^७ > श-पुत्र^८ - -त्रः लाश्रौ
७, ३, ३; निस् ४, १३ : २६;
साश्र १, ४४६.

उद्/शीय^९ - -यम् बौश्रौ १८, १५ :

१८; जैश्रौ २५, ८; द्राश्रौ २, २,

५२; लाश्रौ १, ६, ४९; ७, ३,

१५; ८, ५, २२; जुसू १, ५ :

१२; ७ : ७; निस् ४, १३ : २५;

२६; ७, १२ : २१; ८, ४ : २१;

२२; ८ : ३०; १०, २ : १८;

२३; -यात् जुसू १, ५ : १४;

-येन निस् ४, १३ : ११; २७.

उद्/शीय-नियोग- -गात् निस्

६, ८ : २१.

उद्/शीय संज्ञा- > संज्ञित-

-तम् जैश्रौका २१३.

उद्/शीया(य-अ)च्छावाक-

सामन्- -न्नः जुसू १, ५ : ८.

उद्/शीया(य-अ)न्त^{१०} - -न्तानि

जुसू २, १५ : ३१; निस् ६,

४ : २.

उद्/शीया(य-अ)र्थ- -र्थम् निस्

५, ७ : २८.

१ उद्-वत्^{११} - -वत् आपश्रौ १६, ३०,

११; वैश्रौ; -वती शांश्रौ १४,

४९, ३१.

उद्/ती- -ती निस् ४, १२ : २९;

-तीभिः बौश्रौ ८, २० : २०, वैश्रौ

१६, २६ : १०.

† उद्-वत्^{१२} - -वनः आश्रौ २, १४,

१२; आपश्रौ; या १०, २०.

† उद्-वत्स^{१३} - -राय माश्रौ १, ६, ४,

२१; वाश्रौ १, ५, ५, ७.

† उद्/वत्सरी(य >)या^{१४} - -या माश्रौ

१, ६, ४, २१; वाश्रौ १, ५, ५, ७.

उद्/वद्, उद्/दति आपश्रौ १२, १५,

८; भाश्रौ १, १३, १४.

उद्/दयति बौश्रौ ५, ११ : १३ × ×;

उद्/दयन्ति वाधुश्रौ ३, १०२ :

२१; उद्/दय बौश्रौ ८, ८ : ९; ११,

८ : ९; १२, १३ : १०; १६,

२१ : ११; उद्/दयत काश्रौ

१०, ३, १२१.

उद्-वदत्- -दताम् बौश्रौ २४, २५ :

१८.

उद्-वादन- -नात् आश्रौ १, १२,

१६; वैताश्रौ २, २.

उद्/दाना(न-अ)न्त^{१५} - -न्तम्

काश्रौ २५, १४, ३.

† उद्/वष्, उद्/धीत् बौश्रौ १०,

३१ : २; उद्/वषीः आपश्रौ ४,

६, १; भाश्रौ ४, ७, ४; हिश्रौ

६, २, ९.

उद्/वप्, उद्/वपति काश्रौ २, ४,

१७; ६, २, १०; १६, ४, १८;

आपश्रौ; † उद्/वपामि आपश्रौ

११, ११, ८; बौश्रौ ६, २८ :

१२; वैश्रौ १४, ७ : १०; हिश्रौ

७, ६, ९; † उद्/वपनु आपश्रौ १५,

४, ७; १६, ५, ११; बौश्रौ; उद्/

पतात् बौश्रौ ४, २ : ३३; ६, २६ :

६; २३; उद्/वपेत् बौश्रौ २०, ३ :

२८; ७ : ७; वाध २, २६.

उद्-उस- -सान् माश्रौ २, २, ३, ९.

उद्-उप्य आश्रौ ४, ४, २; आपश्रौ.

उद्-वपत्- -पन्तौ भाश्रौ ८, ५, १७.

उद्-वपन- -नम् हिश्रौ १, ६, ४१;

-नात् हिश्रौ ७, ३, ४२.

उद्/वपन-प्रभृति- -तीनि हिश्रौ

७, ३, ५९.

उद्/वप (> औद्/वप) उद्/व- टि. द्र.

उद्/वम् > उद्-वमन- -ने पा ३, १,

१६.

उद्-वाम- (> उद्/वाम-वत्-,

उद्/वामिन्- पा.) पाग ५, २, १३६.

† उद्/वयस्^{१६} - -याः द्राश्रौ ११, १, ५;

लाश्रौ ४, १, ५.

उद्-वर्तक-, ^{१७}वर्त- उद्/वृत् द्र.

उद्/वस्, उद्/वसेत् अप ३६, १६, १.

उद्/वसयते बौश्रौ २९, ८ : १९;

उद्/वसयति काश्रौ २, ८, १८;

३, ४, २९; ४, १४, ५^{१८}; आपश्रौ;

भाश्रौ ५, १८, २^{१९}; उद्/वसयतः

बौश्रौ ५, ६ : ९; भाश्रौ ८, ५,

१८; उद्/वसयन्ति बौश्रौ १,

१८ : १८; ५, ४ : ४; ९ : ४;

उद्/वसयामि आमिण्ड २, ५, ७ :

a) 'ओ' इति पाठः? यनि. शोधः । b) वैप २, ३३. द्र. । c) विप. । बस. । d) वैप १ द्र. ।

e) =सू. । f) 'यन्ति' इति पाठः? यनि. शोधः (तु. देवयास्त्रिक्रपद्धतिव्याख्या, प्रकरण) । g) पाप्मे.

पृ ४०० i द्र. ।

१८१; बौ० १, ११, १२; उद्वासय
कौ० २, ३७१; उद्वासयेत् आश्रौ
२, ३, ८; आपश्रौ; उद्वासयेयुः
बौश्रौ २९, १० : १०.

उद्-वास- (> उद्वास-वत्, उद्वा-
सिन्- पा.) पा० ५, २, १३६.

उद्वासी √कृ^३> उद्वासी-का-
रिन्- -रिणः आपश्रौ २१, १९,
११; बौश्रौ १६, २२ : ५; वाश्रौ
३, २, ५, ३९; हिश्रौ १६, ६, ३१.

उद्-वासन्^३- -नम् काश्रौ २, ७,
२४; माश्रौ ४, १, २५; आश्रिण
२, ४, ११ : २१; -नात् आपश्रौ
१५, ६, १८; माश्रौ; -ङनाय बौश्रौ
६, २४ : ७; १०, ५१ : ६; -ने बौश्रौ
२०, १२ : ७××; वैश्रौ; -नेषु
वैश्रौ ८, ५ : ५.

उद्वासनी^०- -न्या बौश्रौ
२४, १८ : ७.

उद्वासन-काल- -ले आपश्रौ ८,
२, ९; ६, ११; १०, ७; १४, १३;
१२, ४, १२; बौश्रौ २७, ३ : १४.
उद्वासन-देश- -शम् वैश्रौ १३,
१६ : ६.

उद्वासन-प्रभृति- -ति माश्रौ २,
४, ४, २१; ५, १, २७; -तीनि
हिश्रौ ५, १, २१; २, ३८; ३, १९;
४, ३३.

उद्वासन-मन्त्र- -न्त्रम् भाश्रौ ८,
५, १७.

उद्वासन-वेला- -लायाम् माश्रौ
५, २, २, १७; ६, १६; वाश्रौ १,
७, २, २३.

उद्वासने(न-इ)ष्टि- -ष्टौ हिश्रौ

२२, २, २०.

उद्वासनीय- -यः जैश्रौ २६ :
११; -यम् बौश्रौ ९, ५ : १८;
वैश्रौ १३, ७ : २४; -यानि वाध
११, २१; -ये बौश्रौ ९, १० :
३४; वैश्रौ १३ १३ : ४.

उद्-वासयत्- -यन् माश्रौ ५, १, ९,
२; वैश्रौ २०, २९ : ५; -यन्तम्
कौ० ६४, १५.

उद्-वासयिष्यत्- -ष्यन् आपश्रौ
५, २६, ४; १५, १३, १; बौश्रौ.

उद्-वासयिष्यमाण- -णस्य शाश्रौ
२, ५, २.

उद्-वासित- -तम् काश्रौ २५, २,
१३; आपश्रौ; -तानि बौश्रौ २०,
१२ : ७, ८.

उद्-वास्य शाश्रौ २, ८, १२ × ×;
काश्रौ.

उद्-वास्यमान- -नम् काश्रौ २५,
२, १२; ५, १; आपश्रौ ९, ५, ८;
हिश्रौ १५, २, ७.

उद्√वह्, उद्बहति बौ० १, ५, २;
उद्बहन्ति गो० २, ३, १; वाध १,
३८; उद्...वहन्ति बौश्रौ ८,
५ : ७; वाधूश्रौ ४, ८८ : ३;
जै० १, ४ : ९; या १२, १५;
उद् (वहन्ति) आश्रौ ६, ५, १८;
शाश्रौ; उद्बहन्तु^३ कौ० ३, ३१;
† उद्...वहन्तु कौ० ८१, २९;
अश्र १८, २; उद्बहेत् द्रा० १,
४, १.

उद्-उह्य शाश्रौ २, ७, ८; काश्रौ.

उद्-उह्यमान- -नम् वैताश्रौ २८,
२४.

उद्-वह^०- -इः अप १४, १, १३१.

उद्-वहत्- -हन्तः विध २६, ६.

उद्-वहन^१- -नात् कप्र २, ९, २२;
-ने पा० १, १०, १.

उद्-वाह^१- -हे कौ० २, ८, ३; शा०
२, १३, ३; का० २५, २६; मा०
१, ७, ५; ११, १४; वा० १४, २७.

औद्वाहिक^३- -कम् मा० २,
१, १.

उद्वाह-कर^३- -रम् वाध १९, २८.

उद्वाह-कर्मन्^१- -र्मसु का० २२, ३.

उद्वाह-काल- -ले बौ० ३, ११,
१; वाध १६, ३६.

उद्बहव्य^१- -व्याः बौश्रौ प्र १७ : १.

उद्√वाक्, उद्वायात् कौ० ७२, २१;
३५.

उद्-वात- उद्√वै द्र.

उद्-वादन- प्र०. उद्√वद् द्र.

उद्-वाप्य- उद्√वै द्र.

उद्-वाम- प्र०. उद्√वम् द्र.

उद्-वार^०- -रः हिश्रौ १३, ४, १०;
-रम् बौश्रौ १२, ५ : ३०.

उद्-वावृषाण- उद्√वृष द्र.

उद्√वाग्, उद्वाशिष्ट माश्रौ ३,
५, ११.

उद्-वाशयमान- -ने माश्रौ ३, ५, ११.

उद्√विच्> उद्-वेचम् गो० ३, ७, ८.

उद्√विज्, उद्बिजन्ति अप ७०^१,
२९, ३; उद्बिजेत् विध ९६, ९;
उद्बिजेत् अप्राय ४, २^२.

उद्बिजेत् अप ३६, ६, ३.

उद्-विजमान- -नस्य कौ० २६, २६.

उद्-वेग- > ण-कारिन्- -रिणा
अप ५८^१, २, १.

a) वैप २, ३ खं. द्र. ।

b) गस. उप. भादादर्थेषु प्र. ।

c) = इष्टि-विशेष- ।

d) पाप्मे. वैप १,

११४० द्र. ।

e) वैप १ द्र. ।

f) = विवाह- ।

g) विर. । तेननिर्भृतीयत् ठक् प्र. ।

h) विप.

> नाप. । उस. उप. कर्तरि टः प्र. ।

i) वस. ।

j) व्यप. । व्यु. ? ।

k) उपसृष्टस्य धा.

शमने वृत्तिः ।

उद्/विघ्, उद्...विध्यति आपमं २, २२, २१; हिगु १, १५, ३^{१०}; उद्विध्येत आपगु १२, ७^{१०}.
 उद्-विध्य मागु ३, ११ : १३.
 उद्-वी(वि/ई)क्ष् > उद्वी(वि-ई) क्षमाण-णः आमिगु २, ७, ११ : १०.
 उद्/वृत्, उद्वर्तयति अप्राय १, ५. उद्-वर्तक- पाग २, २, ९.
 उद्-वर्तयत्-यन् कौस् १६, २.
 उद्/वृध् > उद्-वृद्ध-द्धम् आपमं २, १३, ७^१.
 उद्-वृधत्-धत्स् कौस् १४, २३.
 उद्/वृष् > उद्-वावृषाण-णः ऋप्रा ९, २६^१.
 उद्/वृह्, उद्वृहति काश्री ७, ९, २३; उद्वृह या ६, ३^१.
 उद्-वृढ-ढः काश्री २२, १०, २४.
 उद्-वृह्य आपश्री १०, २९, ९; ११, ७, ५; वीश्री १०, २४ : १५; १२, १ : २६; २५, १० : १.
 उद्-वेग- उद्/विज् द्र.
 उद्-वेचम् उद्/विच् द्र.
 उद्/वेप, उद्वेपते अप ५३, १, ३. उद्वेपिष्ट माश्री ३, ५, १०.
 उद्-वेप^० (> औद्वेप- पा.) पाग ४, २, ७५.
 उद्-वेपमान-ने माश्री ३, ५, १०.
 उद्/वेप्द्, उद्वेष्टयत् जैगु १, १७ : १३ उद्-वेष्टय कप्र १, ८, ४.
 उद्/वै, उद्वायति वीश्री १४, २४ : ३८; २८ : ७; १२; २४, १५ : २; २९, ६ : ३; ११; १० : ५; वैश्री २१, १७ : २; उद्वायत्

आपश्री ९, ९, १××; वीश्री; उद्वायताम् वीश्री २९, १२ : १३; उद्वायेयुः वीश्री १४, २९ : ५; २४, २२ : १; २७, १० : ४.
 उद्वायेयाताम् वीश्री १४, २९ : १-३.
 उद्-वात्-तः आमिगु २, ७, ४ : ११; वीगु ४, ४, १; १०, १; २; -तानाम् वीश्री २७, ५ : २; १० : १; ४; -ते वीश्री २२, ३ : १८; २४, २२ : २; २७, ११ : १; २९, १२ : ७; वैश्री २०, २ : १; १९ : १.
 उद्-वाप्य आपश्री ९, ७, ६; ९, १; १०, १७; वीश्री.
 ✓उन्द्, उन्दन- प्रम्. ✓उद् द्र. उन्दुर- पाउभो २, ३, ५२.
 उ(द् >)न्/नम्, उन्नमन्ति अप ७०^१, २१, २; ५.
 उन्-नत्, ता-तः वीश्री १६, २४ : १२; २५ : ३; ५; २३, १२ : ३; -तम् आपश्री १०, ५, १××; माश्री; -ता आपश्री १४, ५, २१; ६, ४; -तात् कौस् २४, ३४; -तान् वाश्री ३, २, ६, ३१; -ताम् आपश्री १४, ५, २२; वैश्री १२, ४ : ९; -ते हिश्री ७, ५, १५; जैश्री २५ : ५; द्राश्री २, २, ४७; लाश्री १, ६, ४४; कौस् २४, ३; पा ५, २, १०६; -तौ आपश्री १४, ६, ५.
 उन्-नति-तिः जैश्रीका २.
 उन्-नमय्य हिश्री २२, ६, १८^१.
 †उ(द् >)न्/नम्भू, उन्नम्भय^१

आपश्री ७, ११, १; ९, ६, ७; १०, २३, ९; १३, १०, ३; १९, २७, ७; वीश्री ८, १० : २; १३, ४० : १; माश्री.
 उन्-नयत्-, यन- उन्/नी द्र. उ(द् >)न्/नह् > उन्-नह्यत्-ह्यन् कौस् ६४, ५.
 उन्-नाय- उन्/नी द्र. उ(द् >)न्-नि(द् >)द्र^० > उद्-कोकनद्-चारु-क(र >)रा^१-०रे विध ९९, २.
 उन्निद्र-कोकनद्-नाभि-गृहीत-पा(द् >)दा^१-०दे विध ९९, २.
 उन्निद्र-कोकनद्-मध्य-समान-व(सि >)गा^१-०र्णे विध ९९, २.
 उन्निद्र-कोकनद्-सद्य-सदास्थिती-(ति-इत् >)ता^१-०ते विध ९९, २.
 उन्निद्रक^१-कः अप ६७, ३, ३.
 उ(द् >)न्/नी, उन्नयते वीश्री २८, १२ : २२; अप २३, ८, २; उन्नयति आश्री ६, १३, १३; शाश्री २, ७, १२; ८, १६; काश्री ४, १४, १०××; आपश्री; उन्नयन्ति काश्री ९, ३, ७; ११, ६; २२, १०, ५; काठश्री; †उन्नये आपश्री १२, ५, १०; वीश्री ७, ३ : १७; माश्री २, ३, २, १८; वैश्री १५, ६ : ७; हिश्री ८, १, ६८; †उन्नयामि काश्री ४, १५, ६; आपश्री; उन्नयतु मागु १, ११, १८^१; †उन्नयस्व आपश्री १२, २६, ४; वीश्री; †उन्नय आश्री २, ३, ११; ६, १३, १४;

a) ष्यसि इति पाठः ? यनि. शोषः (तु. आपमं., संस्कृतिः टि.च)। b) ष्देत् इति पाठः ? यनि. शोषः।
 c) उद्वप- इति पाका.। d) पामे. वैप १, ११५ e द्र.। e) विप.। बस.। f) विप.। कस. > कस. > बस.।
 g) विष.। कस. > षस. > सस. > बस.। h) विप.। कस. > षस. > तुस. > बस.। i) विप.। कस. > मलो. कस. > सस. > द्वितीया-समासः। j) = राक्षस-विशेष-। व्यु. ?। k) पामे. वैप १ विषकमे तै ३, २, ६, १ टि. द्र.।

काश्री; उञ्जी(इनयडउ)नय आश्री
६, १३, १४; ङउद्...नय आपश्री
६, २४, ८; बौश्री; ङउद् (नय)
काश्री १८, ३, १४; शुअ २,
२९१; उञ्जयत कौस् ४९, ६१;
उञ्जयानि आश्री २, ३, १०१;
उद्वनयत् वाधूश्री ३, २२ : १;
२; ३; ४-७; उञ्जयेत आपश्री
२१, ४, १५; उञ्जयेत् आश्री २,
३, १२; १४; काश्री; उञ्जयेयुः
लाश्री ८, ९, १६१.
उञ्जिनेथ शाश्री १४, ४९, ३;
उञ्जिन्यथुः या ६, ३६१; ङउञ्जे-
प्यामि आश्री २, ४, २५; काश्री;
ङउञ्जेष्ठाः बौश्री ७, १३ : ७; वैश्री
१५, २७ : १३; हिश्री ८, ७, १;
उञ्जैषम् कौस् ४७, ५४१.
उञ्जीयन्ते वाधूश्री ३, ३४ : ५;
उञ्जीयताम्, उञ्जीयन्ताम् कौग्
४, २, ३१.
उन्-नयत्- -यत् आपश्री १२, २९,
९××; वैश्री.
उन्-नयन- -नम् काश्री २२, १०,
५; काश्रीसं ३३ : २; बौश्री १४,
२ : २५, हिश्री १०, ५, ३३;
वैग् ३, १२ : ५; -नयोः वैश्री
१५, १३ : १०; -ने काश्री २५,
१२, १५; बौश्री २०, २० : ६.
उञ्जयन-काल- -ले आपश्री १८,
२१, २; हिश्री १३, ७, १२.
उञ्जयन-देश- -शे आपश्री ६,
८, ४; १२, ६; १४, ५.
उञ्जयन-प्रभृति- -ति वैश्री २,
३ : ११.
उञ्जयन-विधान- -नात् काठश्री
१३७.

उञ्जयन-श्रुति- -तेः काश्री ९,
५, २२.
उञ्जयना(न-आ)दि- -दि आपश्री
१३, ४, १०.
उन्-नाय- पा ३, ३, २६.
उन्-नीत- -तः अप्राय ३, ३; -तम्
काश्री २५, २, १५; आपश्री;
-ताः काश्री १०, ९, ८; -तानाम्
शाश्री ७, ४, ५; -ते शाश्री २,
८, १९; आपश्री ६, ७, ५; माश्री
३, २, १४; हिश्री ६, ६, ६; -तेषु
वैश्री १५, २७ : २०.
उञ्जीत-शि(खा>)रु^१- -खः सु
१६, ५.
उञ्जीत-सर्व-स्कन्दन-सुग्मे-
द^१- -इयोः काश्री २५, २, २९.
उन्-नीय आश्री ३, ११, १३; शाश्री
२, ७, ७; काश्री.
उन्-नीय- पा ३, १, १२३; -यम्^०
शाग् ४, १४, ४.
उन्-नीयमान- -नः अप्राय ३, २, ३;
-नम् काश्री २५, २, १४;
आश्री; -नाः आश्री ६, १३,
१४; -नाय आश्री ५, ७, ६;
शाश्री ७, ७, १; काश्री; -ने
शाश्री ५, १०, ६; आपश्री; -नेभ्यः
आश्री ५, ५, १४; शाश्री ७, ४,
१××; काश्री; -नौ वैश्री १२,
१९ : २५.
उञ्जीयमान-सूक्त- -क्तम् शाश्री
७, ४, १; १७, ३; ८, २, ३; वैश्री
१५, २७ : १५; -क्तानि बौश्री
२५, २२ : ३.
उन्-नेतुम् या ९, ३.
उन्-नेतृ- पाउ २, ९४; पाग ५, १,
१२९; -०१तः आश्री ६, १३,

१४; काश्री; -तरि आपश्री १३,
१७, ४; काठश्री १५८; बौश्री
८, १६ : १८; वैश्री १६, २१ :
२; हिश्री ९, ४, ५१; द्राश्री ६, ३,
१८; लाश्री २, ११, १२; -ता
आश्री ४, १, ६; ६, १३, १३;
शाश्री; -तारम् काश्री १२, २,
१९; ङआपश्री; -तारौ काश्री १३,
४, २१; आपश्री २२, १६, १२;
-तुः आश्री ९, ४, २०; १२, ९,
१२; काश्री ९, २, १; १२, २, २१;
बौश्री ८, ६ : ११; १६, २ : ५;
वाश्री ३, ३, ४, २०; वैश्री १५,
१३ : १०; -त्रा आश्री ६, १२,
१; काश्री १०, ९, ८; -त्रे काश्री
१०, ४, ७; आपश्री.
औञ्जेत्र- पा ५, १, १२९.
उन्-नेव्यमा(ए>)णा- -णासु
आश्री ५, १३, १३.
?उञ्जेतात् अप्राय ६, ५.
उ(द्>)न्/मज्ज्>उन्-मग्न-
-मस्य हिपि २३ : ३२.
उन्-मज्जक^१- -काः बौध ३, ३, ९;
१०.
उन्-मज्ज्य आग् ४, १०; आमिग्
२, ६, २ : १३; ३, ४, ४ : १९;
बौपि ३, ४, १६; ६, ६; शंष
१०३; बौध १, ५, ११०; २,
५, ७.
उ(द्>)न्/मथ्>उन्-मथ्य पाग्
१, ८, १०.
उ(द्>)न्/मथाय (<मथ-),
उन्मथायति शाश्री १२, १८,
१२१.
उ(द्>)न्/मद्, न्द, ङउद्...
मन्दन्तु शाश्री १८, १३, ६.

a) विप. । बस. । b) कस.>षस.>द्वस. । c) द्वि१ सद् वा. किवि. । d) = वानप्रस्थ-विशेष- ।

e) उपभज्य इति B. ।

वैताश्री ३३, २३; ३९, ५; ऋउद्
(मन्दन्तु) साअ १, १९४; अअ
२०, ९३.

उद्... माद्यति सु ६, १; उन्मा-
द्येत् बौश्री १४, १८ : ६.

उन्-मत्त, त्त- -त्तः आमिष्ट ३, १०,
१ : ४; बौषि; -त्तम् वाध १७,
२०; आपध २, १४, १; विध
७१, ३०; हिध २, ३, १२; अप्रा
२, ३, १५१; -त्तस्य बौश्री १८,
४१ : १६; -त्ता बौश्री ९, १८ :
१७; -त्ताः अप ५५, १, ७;
-त्तान् आमिष्ट ३, ११, १ : १०;
-त्तानाम् अप ६४, १०, २;
-त्ताय बौश्री १४, १८ : ६;
-त्तौ शंघ ३७७ : २.

उन्मत्त-क- -कः दैध १, ७, ८.

उन्मत्त-ता- -ताम् अप ३६,
२८, १.

उन्मत्त-त्व- -त्वम् अप ३६,
१८, १.

उन्मत्त-मृक- -कान् शंघ २९.

उन्मत्त-वत् वृदे ७, १५०.

उन्मत्त-वेष्- -षः वाध १०,
१९.

उन्-मदिष्णु- पा ३, २, १३६.

उन्-मनस्- पाग ३, १, १२; -नाः
पा ५, २, ८०.

√उन्मनाय पा ३, १, १२.

उन्-मर्दन- उन्/मृद् द्र.

उ(द्) > न्/मद् > उन्-महयत्-
-यन् बौश्री १, ६ : ४; १३ : २.

उ(द्) > न्/मा (माने), ऋउन्-मा^१-
-मया आश्री ३, १३, १५; आपश्री
४, ५, ४; ९, १३, ६; भाश्री ४, ६,

७; वैश्री २०, २७ : ६; हिश्री
१५, ४, ४; अप्राय ४, १; -मा
बौश्री ९, ७ : २०; १०, ४७ :
९; १९, ४ : २०; वाश्री ३, २,
६, ४२९; अप्राय ३, १९.

उ(द्) > न्/मील्, उन्मीलते अप
६७, ६, २.

उन्मीलयन्ति अप ७२, ४, ४.

उ(द्) > न्-मुख^१- -खाः अप ६१,
१, ९.

उ(द्) > न्/मुच्, उन्, ऋउद्...
मुमुग्धि माश्री ३, १, २९; काग
७१, १२; अप्राय ४, १; ३; उद्
(मुमुग्धि) वैताश्री २८, १७१.
उन्मुच्चते बौश्री १०, १६ : ७;
वाश्री २, १, ३, १३; वैश्री १८, ८ :
९; हिश्री ११, ३, ३६; उन्मुच्चति
आपश्री १०, २९, ९; माश्री.
उद्मोचि आपमं २, १२, ९१०.

उन्-मुक्त- -क्तः^१ आपश्री १०,
२९, ९; बौश्री ६, १६ : १६;
भाश्री १०, २०, १५; वैश्री १२,
२१ : ६; हिश्री ७, ३, २९;
-क्ताः वैगृ ५१ : २४.

उन्-मुच्य आश्री ८, १४, १७; काश्री
१६, ५, १७; ८, ५, ६; ९; आपश्री;
आपमं १, ४, १११०; आमिष्ट १,
५, ३ : ३१०; बौगृ १, ४, २३१०;
भाग १, १४ : १२१०; वैगृ ७,
४ : ४१; हिगृ १, १९, ७१०;
जैगृ १, २० : २८१०.

उन्-मुच्यमान- -नम् वैताश्री ३६,
१९; -नान् वैताश्री २८, १७.

उन्-मुञ्ज(त्) > न्ती- -न्तीः अअ
८, ७१.

१ उन्-मोचन^१ - > चन-प्रतिरूप-
-पम् कौसू ५२, ३.

२ उन्-मोचन^२ - -नः अअ ५, ३०.
उन्मोचन-प्रमोचन- -नौ अअ
६, १०६.

उ(द्) > न्/मुह् > उन्-मोहित-
-तः वृदे ४, २३.

उ(द्) > न्/मूलि (< मूल),
उन्मूलयेत् अप ६८, ५, ३.

उन्-मूल्य- -ल्ये अप २३, ४, १.

उ(द्) > न्/मृज्, उन्मृष्टे बौश्री
१४, ८ : १८; ३२^३; उन्मार्ष्टि
काश्री ९, ४, ३३; आपश्री ७,
११, ३××; बौश्री; उद्...मार्ष्टि
बौश्री २, १८ : ३६१; ऋउन्मृजे
बौश्री १४, ८ : १७; ३१; ३२^३;
३३^३; ? उद्मार्ष्टि^४ वाधूश्री ३,
१९ : ४; उन्मृज्यात् आपश्री
१२, ११, ४; माश्री १, २, ६, ५;
२, ३, ३, १९^२.

उन्मृजेत् भाग १, २२ : १६.

उन्मृज्यते बौश्री १८, १७ : १२.

उन्-मार्जन- -नम् आश्री २, ४, २५;
माश्री २, ३, ४, २९.

उन्-मार्ज्य वैगृ ३, १० : ९.

उन्मृज् > जा- (ज-अ) वम् (ज >)

जा- पाग २, १, ७२.

उन्-मृजत्- -जन् बौश्री १२, ९ :
१७.

उन्-मृजान- -नः कौसू ३८, ४.

उन्-मृज्य शाश्री ४, ४, २; १४, ८;
काश्री; कौगृ ५, ३, २९^१.

उन्-मृज्यमान- -नः वैश्री १२, ७ :
१३.

उन्-मृष्ट- ऋउद् वाधूश्री ३, १९ :

a) विप. । बस. । b) वैप १ द्र. । c) पाभे. वैप १, ९१६ j द्र. । d) पाभे. वैप १ प्रमुक्तः काठ २,

७ टि. द्र. । e) पाभे. वैप १, ११५९ n द्र. । f) = पाश- । गस. उप. अपादाने ह्युद् प्र. । g) = ऋषि-विशेष- ।
मस. उप. कर्तारि कृत् । h) पाठः ? उद्मार्ष्टि इति शोधः, यद्वा लुङि प्रपु १ रूपं द्र. । ङे) = उल्लिख्य ।

५; कौस् १२४, ४; -ष्टस्य, -ष्टे
शांश्रौ ४, ४, २.
उ(द्>)न/मृद्. उन्मृद्नीते जैगृ
१, १८ : ७; ?उन्मृद्नीते > ता
लाश्रौ १, २, १८.
उन्-मर्दन- नम् काश्रौ १९, ४, १८;
आगृ ३, ८, १.
उन्-मृद्य काश्रौ १०, ९, ३०.
१, २उन्-मोचन- प्रमृ. उन्/मुच् द्र.
उन्-मोहित- उन्/मुह द्र.
†उप^५ आश्रौ १, ११, १५^{२b}; ३, ७, १०;
१२, १४; २७; ४, १३, ७; ८, १,
१७; ९, २; ११, ४^३; शांश्रौ १,
१४, २०^b; २, ४, ३^c; ३, ५, ९;
१९, १६; ७, ११, ४; १०, ८, ९;
९, १७; १२, २, २०; ३, १३; १८,
१०, १२; १५, ५; आपश्रौ २, ५,
९; ३, ७, १२; ४, १२, १०^{3b};
१६, १५; ५, १, ७^d; ९, ९, ३;
११, १६, १०^b; १२, २०, १०;
२१, ९, १३; वीश्रौ १, १२ : ३१;
१९ : ३५; ३, २९ : २३^b; ९,
२ : ७; १३, २१ : ३; १६, ६ :
१०; २२, १८ : ३^o; २० : १२;
भाश्रौ २, ५, ९; ३, ६, १५^b; ४ २०,
१^c; माश्रौ १, ३, ४, २६; ५,
१, ९, २३; वैश्रौ ७, ७ : ८; १३,
१ : ९; हिश्रौ १, ७, २१; २, ४,
३९; ६, ४, ३२^{3b}; १२, ६, ६;
१५, ३, २; २२, ३, २७; जैश्रौ
२१ : १८; द्राश्रौ ४, १, ११;
लाश्रौ २, १, १०; वैताश्रौ २९,
१३^२; आपमं २, २०, २८; आगृ

२, ४, १३; शांश्रु २, १३, ५; ३,
१३, ३; पागृ १, १५, ८; आमिगृ
३, १, २ : ६; २, ५ : १२; ७ : ५;
भागृ २, १५ : १३; १६ : १४;
१७ : ९; हिगृ २, ११, १; १५, ७;
गौपि २, ३, ७; ४, ७; अप्राय ५,
१; कप्र ६, ४, १२; कौस् ४५,
१४; ८२, २६; ८४, १; अप ३२,
१, ३; ११; १८; ऋअ २, ३, ४२;
१०, ३१; वृदे ४, ११५; ५, १२०^१;
७, ३४; शुअ २, २७३; साअ १,
४४४; २, १०५५^२; अअ १, २८;
६, ३७; १८, ३^१; २०, २४; या
१, ३६; ६, ७; २२^१; ७, २; ऋप्रा
८, ४५; १२, २०^{६b}; १५, १७^{६b};
ऋशुप्रा ६^b, ९, २४; ऋप्रा^b १,
१७; ४, २४; ४२; पागृ १, ४,
५८^{६b}; उनिस् ५ : २०; उपऽ
उप पा ८, १, ६; उपो(प+उ)
अअ १३, ४(४).
उप- -पः पा १, ४, ८७.
उपक^६- पाउभो २, २, ११; पा २, ४,
६९; पागृ २, ४, ६९; ४, १,
९९.
औपकायन- पा ४, १, ९९.
उपक-लमक- पा, पागृ २, ४, ६८.
उप-कक्ष^६- -क्षयोः वागृ ९, ३; -क्षासः
या १, ९६.
उपकक्ष-द्व- -द्वाः या १, ९.
उप-कनिष्ठिका^१- कथा शांश्रौ ४, ७,
७; २१, ८; वौपि ३, १०, १^१;
गोगृ १, ६, १४; २, ६, १०; ७,
१८; जैगृ १, २ : २; ४ : २६;

१९ : ३९; -काभ्याम् शांश्रु १,
८, २१; गोगृ १, ७, २३.
उप-कन्या- पा ६, २, १९४.
उप-कर्ण- > औपकर्णिक- पा ४, ३,
४०.
उप-कर्षम् उप/कृष् द्र.
उप-कलाप-(> औपकलाप्य- पावा.)
पावाग ४, ३, ५८.
उप-कल्प- पा ६, २, १९४.
उप-कल्पन- प्रमृ. उप/क्त्वर्
द्र.
उप/काश्रु > उप-काश^६- -शे
आपश्रौ १५, १८, १३; वीश्रौ
१५, १८ : २३; भाश्रौ ११, १९,
३; कागृ ४६, ३.
†उपकाशि(न>)नी^१- नी आमिगृ
२, १, ३ : १६; भागृ १, २३; ५;
हिगृ २, ३, ७; -नीः आपमं २,
१३, १०.
उप-कुम्भ- -म्भे शंघ १३२.
उप-कूल- पावाग ४, ३, ५८; -लम्
जैगृ २, ५ : ४.
औपकूल्य- पावा ४, ३, ५८.
उप/कृ, उपकरोति वाश्रौ ३, ४, ३,
२४; उपकुर्वन्ति विध २०, ३०
उपकुरु वाधूश्रौ ३, ९९ : ७;
उपकुर्यात् विध २०, ३७; उप-
कुर्याताम् शंघ २४८.
उपकारयति भागृ १, ९ : ७.
उप-करण^३- -गानि कौगृ १, १४, ४;
शांश्रु १, २२, ६.
उप-का(रक>)रिका- -का जैश्रौका
३.

a) प्रायेण ऋ. । b) स्वाअ. । c) पाभे. वैप १ प्रति मा ८, २४ टि. द्र. । d) स्वाअ. (तु. सप्र. तैत्रा १, २, १, ३) । e) उपर्यर्थे अव्य. । f) तु. वैप १, ९१८ m; वैतु. या. उपप्रेतु इति । g) व्यप. । व्यु? । h) विप., नाप. । प्रास. (वैतु. वैप १, ९२४ u) । i) = अनामिकाङ्गुलि- । प्रास. । j) पृ ६१ १अङ्गुष्ठो इत्यत्र संकेतोऽयं नेष्टः । k) = प्रकाश- । गस. उप. भाप. । l) अर्थः व्यु. च? । ?बजाबोजा टि. द्र. ६ m) = साधन- । गस. उप. कणे ल्युट् प्र. ।

उप-कारि(त>)ता-ता अप ७, १, १०.

उप-कारिन्-रिणे विध ९३, १४.

उप-कार्य-> औपकार्य^०-र्यम् आपगृ २१, ११.

उप-कुर्वाण-णान् गौध १०, ११.

उप-कृत-पाग २, १, ५९; ५, २, ८८; -तः निसू ६, १०:

३२; ८, २: २; १७^०; ५: ३; २०; ६: १६; ८: ३८;

९: २०; १०: १६; ४६; ९, १२: ६; १०, ५: १७; -तम्

निसू ९, १०: २८; ११: ३६; १०, ५: २०; ९: ३०; ३१;

१३: १५; १६; -ता: निसू ६, ८: २; १०, ३: १; २१; -तानि

निसू ९, १०: ३; १०, १२: २१; -तौ निसू ७, ७: ३; ८:

१९.

उपकृतिन्-पा ५, २, ८८.

उप/कृत् (वेष्टने), उपकृणस्मि माश्रौ २, १, ४, १४^०.

उप/कृप्, उपकर्षति माश्रौ १, १, १, २२; ४५××; वाश्रौ; उप-कर्षन्ति वैश्रौ १५, १४: २;

१६, २: ५; हिश्रौ ८, ३, ४१.

उप-कर्षम् पा ३, ४, ४९.

उप-कृष्य माश्रौ १, २, १, २३××; वाश्रौ १, ६, ३, २५; हिश्रौ १, ५, २५.

उप/कृ, उपकिरति काश्रौ ५, १०, ११; आमिगृ ३, ८, २: ३८; ६६; बौपि १, १५: ७०; उप-किरन्ति काश्रौ २४, ५, २९;

बौश्रौ १५, १८: ४; २५: ११;

बौगृ ३, १०, ४.

उप/कल्प, उपकल्पते बौश्रौ २, १४: ११; ८, ६: ७.

उपकल्पयते आपश्रौ ५, १३, ३××; बौश्रौ १४, १६: १;

आमिगृ २, ५, ५: १^०; उपक-ल्पयति शाश्रौ १७, ४, १; वाश्रौ

३, २, ५, ४५; उपकल्पयन्ते बौश्रौ १६, २९: ५; २३, १२: १५; कौसू

९४, ६; उपकल्पयन्ति शाश्रौ १७, ३, १; १२; ४, ८; ५-६, १;

उप/कल्पयन्ति बौश्रौ २, १७: १५; ४, २: ३६; ६, ३०: १३; १०, ५१: १८; †उपकल्पयस्व माश्रौ

२, ३, ६, १२^०; ४, ४, १८^०; द्राश्रौ १०, २, ८; लाश्रौ ३, १०, ७;

†उपकल्पय हिश्रौ ८, ७, १; ९, २, ५; उपकल्पयध्वम् कौसू ९४, ५†; उपकल्पयति बौश्रौ २२, १३: ७; आगृ ३, ८, १; मागृ

१, ८, १; उपकल्पयेत निसू १, ११: ४; उपकल्पयेन् शाश्रौ

१७, १, १८; वैश्रौ; उपकल्पयीरन् बौश्रौ २३, १२: १६; आगृ ४, ६, ४.

उप-कल्पन-नम् बौशि ३, ६, ४; -ने बौश्रौ २०, २: १२; २१, ७: १६; १८; २०; -नेन बौश्रौ

२६, १२: १८.

उप-कल्पयितवै काश्रौ २५, १०, ३.

उप-कल्पयित्वा गोगृ ४, ९, २; अप १९, १, ५; २०, १, ३; ३, ४.

उप-कल्पिन्-ल्पी बौध ३, ८, ६.

उप-कल्प्य बौश्रौ २६, २२: १०; पागृ.

उप-कल्प, सा-सः बौश्रौ २५, २६: १; हिश्रौ; -सम् बौश्रौ

१०, ९: १; १४, १३: ३४; वैश्रौ; -सा शाश्रौ १७, ३, १०; बौश्रौ

१६, २४: १३; २६, १८: ७; हिश्रौ ७, २, १६; -सा: बौश्रौ

२, ६: १३^० × ×; वाधूश्रौ; -सानाम् बौध ३, १, १४;

-सानि बौश्रौ १५, १६: २; वाधूश्रौ ३, ७९: १; हिश्रौ ७, ७, १५; गोगृ २, ९, ३; -से

वाधूश्रौ ३, ७६: ३२; हिश्रौ ७, ५, १; -सेन बौश्रौ १५, २: ४; १८, ८: ९; १६: ५; ४०:

१७.

उप-नलूस-सोम^०-मः काश्रौ ७, १, २.

उप/क्रम^०, उपक्रमते निसू २, ५: ३२; ३६; गोगृ १, ७, ४: ८, २; उपक्रमन्ते हिश्रौ ८, १, २;

†उपक्रमस्व आश्रौ ६, ४, १०; शाश्रौ ७, १५, ३; उपक्रमेत् वाश्रौ

२, १, ५, १५: ३, ४, २, ७; हिश्रौ ११, ६, ५४; लाश्रौ ९, ९, ६; १०, १८, ८; १९, ४; उपक्रमेत् निसू

४, १३: २१; कप्र १, १, १६; २, ८, १९; अप ३७, ४, १; नाशि २, ८, ८; उपक्रामेत्

निसू २, ५: ३३; ३७; उपक्रामेत् गौपि २, २, ६.

उपचक्रमे अप १९^२, १, २; ७१, २, ४; वृदे ४, १२; उपचक्राम वृदे ७, ४.

उप-क्रम-मः आपश्रौ १९, १४, ८; काश्रौसं ६: ३†; बौश्रौ २,

a) स्वार्थे प्र. । b) ण्तिः इति पाठः ? यनि. शोधः (तु. नान्तरीयं स्थलम्) । c) पाभे. वैप १, ९२६४

द्र. । d) कल्पयते इति पाठः ? यनि. शोधः (तु. सप्र. बौश्रौ १४, १६: १) । e) पाभे. वैप २, ३ खं. इहि मास ४, २, ५, ११ टि. द्र. । f) पाभे. पृ २०६ ङ द्र. । g) विप. । बस. । h) पा १, ३, ३९; ४२ परामृष्टः द्र. ।

६ : १××; हिथ्रौ; -मात् हिथ्रौ
३, १; १७; निस् ९, ४ : १०;
-भे निस् ४, १२ : २१; ८, ५ :
१६.

उपक्रम-धर्म- -र्मः निस् ४, ५ :
१७; १८.

उपक्रम-प्रवृत्ति- -ति या १, १.

उपक्रम-संस्था- -स्थया निस् ८,
१२ : ९.

उप-क्रमण- -णम् अप ३३, ४, ३.

उपक्रमणीय- -यम् निस् ४,
१२ : २३; ८, ४ : २३.

उप-क्रममाण- -णः वौथ्रौ २५, ६ :
६; १४; १७.

उप-क्रम्य आपथ्रौ ८, ९, १ × ×;
वौथ्रौ.

उप-क्रान्त- -न्ते काथ्रौ ८, ४, २०;
या ८, ११.

उप-क्रामम् वाथ्रौ ३, २, ३, ३५.

!उपक्रमेण्यम् अप्राय ६, ४.

उप/क्षर्, उपक्षरन्ति वाथ्रौ १, ४, १,
१०; आपृ ३, ३, ३; आमिगृ
२, ६, ४ : १०; उप (क्षरन्ति)
ऋअ २, १, १२५; ऋउप...
क्षरन्तु भागृ २, १३ : १५; हिगृ
२, १२, १०.

उप/क्षिप् > उप-क्षिपत्- -पन्
माथ्रौ १, ३, १, ९.

उप-क्षिप्य भाथ्रौ ८, १२, ७.

उप/ख्या > ऋउप-ख्यात्- -न्ने
आपथ्रौ २०, १, १७; वौथ्रौ १५,
३ : ७; हिथ्रौ १४, १, १२.

उप-गा- उप/गै द्र.

उप/गच्छ, गम्, उपगच्छति अप

६३, २, २; वौथ्र ४, १, २०; विध
८४, ३; उप...गच्छति वौथ्रौ
२, ११ : २०; उपगच्छतु अप
८, १, ७; उप...गच्छ आपथ्रौ २,
१४, ३१; शाथ्रौ १, १७, १९;
उपगच्छेत् वैगृ ३, ८ : ७; ९ :
१४; वैथ २, ५, ३; ३, १, ५;
ऋउपगच्छेम् आपथ्रौ १६, १९, १;
वैथ्रौ १८, १६ : ११; हिथ्रौ ११,
६, ३१.

ऋउप (अगन्म) शाथ्रौ ५, १४,
१६; कौस् ५८, ३; ११; अप
३२, १, ९; वृदे ६, १३३; मात्र
२, १०५६; अत्र ७, ३२.

उप-गत- -तः विध १५, २३;
सुधप ८५ : ७; -तान् वैगृ ५,
६ : १८.

उप-गम- -मः वाध १६, १६.

उप-गमन- -नम् वैगृ ३, ८ : ८;
९ : १५; -नानि वौगृ १, ७,
४७; हिगृ १, २५, ३.

उपगमन-मन्त्र- -न्त्रः वौथ्रौ २५,
१० : २३.

उप-गम्य शागृ ६, २, ३.

उप-जिगमिषत्- -षन् निस् ८, ९ :
८; ९, ४ : १९.

उप/गण > उप-गणित- (> उप-
गणितिन्- पा.) पाग ५, २, ८८.

ऋउप/गा, उपागात् माथ्रौ ३, ६, १५^३;
अप्राय ६, ३^३; वाध ५, ९; उपागुः
निस् ६, १२ : ९; उपागाः^४
आपथ्रौ ११, १८, २; १५, १६,
१०; वौथ्रौ ६, ३१ : १२; ९,
१६ : १८; उपागाम् आपथ्रौ

४, १६, १६; ५, २७, १; ६, ११,
४; १४, ६; वौथ्रौ; उपगेषम्^५
आथ्रौ ४, ५, ३; शाथ्रौ ५, ८, २;
वौथ्रौ ६, १९ : ६; हिथ्रौ १७,
६, ४४; द्राथ्रौ १४, २, ३; लाथ्रौ
५, ६, ६; वैताथ्रौ १३, १८; कौगृ
१, २, ३; शागृ १, ६, ५; उपगाम
आपथ्रौ ४, ५, ५; भाथ्रौ ४, ७,
१; हिथ्रौ ६, २, ४.

उप-गा- , गान्- प्रमृ. उप/गै द्र.

उप-गु^६ > औपगव- -वम् निस्
७, १२ : १९, ९, १ : १४; -वयोः^७
लाथ्रौ ७, १०, १०; -वाः वौथ्रौ प्र
४७ : १.

औपग (व्य >) व्या^८ - व्याः अप
४६, ७, ३.

उप-गुड- पा ६, २, १९४.

उप/गु > गृह, उपगृहति काथ्रौ
४, २, ११××; आपथ्रौ; उप-
गृहामि भागृ २, १९ : १२;
उपगृह भागृ २, १९ : ११.

उप-गृहन^९ > उपगृहन-शेष-
-षः काथ्रौ ६, १०, ६.

उप-गोह^{१०} - ह्यः पागृ २, ६, १०.

उपगृह^१ - (> उपगृह-क^१ - पा)
पाग ४, २, ८०.

उप/गृह, अगृह, उपगृह्णीते भाथ्रौ ३,
१२, ५; पागृ २, ६, १८; उप...
गृह्णीते हिथ्रौ १०, ३, २६;
उपगृह्णीति काथ्रौ ६, ३, २८××;
वौथ्रौ; उपगृह्णन्ति वौथ्रौ १९,
५ : २०; ऋउपगृह्णातु^{११} माथ्रौ १,
२, २, ३२; वाथ्रौ १, २, ४, ६८;
उपगृह्णीत भागृ १, ११ : ७;

a) पाभे. वैप ३ परि. अवागन् काठ ३५, ११ टि. द्र. । b) पाभे. वैप १, ९२५ k द्र. । c) पाभे.
वैप १, ९२५ m द्र. । d) = ऋषि-विशेष- । व्यु. ? । e) = साम-विशेष- । f) विप. । प्राग्दीव्यतीयः
व्यः प्र. उरं. (पावा ४, १, ८५) । g) = मन्त्र-विशेष- । उप. करणे कृन् । h) = अग्नि-विशेष- । i) अर्थः
व्यु. च ? । j) = देश-विशेष- ? । k) पाभे. वैप १, ९२५ r द्र. ।

१४;१७; १२ : २;५; ६;९;१३;
उपगृहीयात् माश्रौ ३, २, १.
†उप (अप्रभीत्) वैताश्रौ ३,
१७; अत्र ७, ११०.

उप-गृह्य काश्रौ ९, ६, १५; वैश्रौ
१३, २ : ४; २०, १२ : ४;
कौस् ७६, १४.

उप-ग्रह^a - > उपग्रह-प्रतिषेध^b -

-धः पावा ३, २, १२७.

उपग्रह-प्रभृति^c -तीनि द्राश्रौ
२, २, ४; लाश्रौ १, ६, ३.

उपग्रहा(ह-आ)दि-दीनि
लाश्रौ ७, ८, ११.

उप-ग्रहण-गम् काश्रौ १, १०, ६.

उप-ग्रहीष्यमाण-णः कौय १, २,
१; शांय १, ६, १.

उप/गै, उरगायते हिश्रौ १७, ५, ३;
उपगायति आपश्रौ १२, १७,
११; उपगायन्ति काश्रौ १३,
१, २२; आपश्रौ २१, १७, ४;
बौश्रौ १६, २१ : १४; हिश्रौ
१६, ६, २१; द्राश्रौ ३, ४, ३†;
उपगायात् माश्रौ २, ३, ६, ७;
†उपगायताम् द्राश्रौ ११, २, ५;
लाश्रौ ४, २, ४; उपगायत शाश्रौ
९, १९, २†; †उप...गायत
> ता जैश्रौका १२१§; लाश्रौ
७, १०, १९†; ८, १२, ७;
लुस् १, १ : १८; २ : १०; ९ :
२; २, ४ : ४; ५; ५ : ४; निस् ९,
३ : ३१; †उप (गायत>ता)
द्राश्रौ ८, २, २९; लाश्रौ ४, ६,
२०; ऋअ २, ९, ११; शुअ ३,
२२५; साअ २, १; १९; उप-

गायेत् वैश्रौ १४, १२ : ३; जैय
१, १७ : १०; उपगायेयुः आपश्रौ
१३, १५, ६; वैश्रौ १६, १८ :
१२; द्राश्रौ ३, ४, ६; लाश्रौ
१, ११, २६.

उपगीयते बौश्रौ १६, २२ :
१; जैश्रौका ११७; उपगीयेत
जैश्रौका ११८.

उप-ना^d -गाः द्राश्रौ ३, ४, १; ३; ७;
लाश्रौ १, ११, २४; मीस् ३, ७,
३०; -गेषु मीस् १०, ४, ८.

उप-गा^e -> उपगा-दर्शन-नात्
काश्रौ ६, ७, ३.

उप-गात् -तारः शांश्रौ १७, १४, ७;
आपश्रौ १२, १७, ११; २१, १७,
१५; बौश्रौ ७, ८ : १०†; १७,
१९ : ३; हिश्रौ १६, ६, १३;
जैश्रौका ११४; द्राश्रौ ३, ४,
४†; -तृभ्यः द्राश्रौ ३, ४, २†;
-तृणाम् आश्रौ १२, ९, ६; -तृन्
जैश्रौ ११ : १०; जैश्रौका ११३;
द्राश्रौ ११, २, ६; लाश्रौ ४, २, ५.
औपगात्र-यम् आपश्रौ १२,
१७, २†.

उप-गान->उपगाना (न-अ) मि-
यान^f -नः जैश्रौका ११६.

उप-गीत-तम् द्राश्रौ ३, ४, २†.

उप-गीथ^g -थः आपश्रौ २०, १३, ७;
हिश्रौ १४, ३, १२.

उप-गेय-यम् द्राश्रौ ३, ४, २†.

उप-गोह्य-उप/गुह द्र.

उप-गौर-पा ६, २, १९४.

उप/ग्रथ्, ष्, उपग्रथे बौश्रौ २८,
९ : २१†.

उपग्रहाति बौश्रौ ६, १५ : १२;
माश्रौ १०, १७, १९; वैश्रौ १२,
१९; ७; उपग्रहन्ति आपश्रौ २०,
१५, ११; †उपग्रहामि^h आपश्रौ
१०, २६, १४; बौश्रौ ६, १५ :
१३; माश्रौ १०, १७, १९; वैश्रौ
१२, १९ : ६; हिश्रौ ७, २, ७८.

उप-ग्रथ्य आपश्रौ १०, २६, १४;
हिश्रौ ७, २, ७८.

उप-घात-, घातम्, ण-, णत्- उप
/हत् द्र.

उप/घ्रा, उपजिघ्रति काश्रौ १२, ५,
११; जैय १, ८ : ११; १३;
उप...जिघ्रताम् या ५, १२†;
उपजिघ्रन् वृदे ७, ५; उप-
जिघ्रेत् द्राश्रौ ९, १, ८; लाश्रौ
३, ५, ८; आपध १, ७, ४; ८;
हिथ १, २, ६३; ६५; उजिघ्रेत्
द्राश्रौ ६, ३, २५; लाश्रौ २, ११,
१८.

उपघ्रापयेत् लाश्रौ १, ४, ३, २३.

उप-घ्रात-तम् गौध १७, ११.

उप-घ्राप्य आपश्रौ १६, २३, १××;
माश्रौ.

उप-घ्राय द्राश्रौ ६, ३, १८; १३,
२, २; ३; लाश्रौ २, ११, १२;
५, २, ६; ७.

उप-जि(ग्र>)घ्रीⁱ -घ्यः या ३,
२०.

उप-चतुर-पात्रा ५, ४, ७७.

उप-चय-, स्थान-उप/चि(चयेने)
द्र.

उप/चर्, उपचरति आपश्रौ १५,
४, ४; १६, ५, १०; बौश्रौ;

a) उप. कर्मणि अप् प्र. (पा ३, ३, ५८)। b) पूष. = आःमनेपद-। c) पूष. = निधन-विशेष-।

d) = ऋत्विग्-विशेष-। उप. कर्तरि कः प्र.। e) उप. भावे अह् प्र.। f) विप.। बस. उप. = उपक्रम-।

g) नाप.। उप. थक् प्र. उसं. (पाउ २, १०)। h) पामे. वैप १, १२६ a द्र.। i) = सीमिका-।

उप. कर्तरि शः प्र.।

उपचरन्ति वाश्रौ ३, २, ७, ८७;
उपचरत् माश्रौ ४, १, २३; २४;
वैश्रौ १८, २ : २ : वाध १७,
६१; विध ९४, ४; उपचरेयुः
माश्रौ २, २, १, १०.

उप-चरन्- -रताम् माश्रौ ५, २,
१, १.

उप-चरित,ता- -तम् माश्रौ २, ३,
६, ३; ५, ३, १९; काश्रु २९, १;
हिपि २ : ६; -ता काठश्रौ १६१;
-ताः आपश्रौ ८, १७, ३; १७,
१६, ५; वैश्रौ १९, ६ : ९८;
हिश्रौ ५, ५, ३; १२, ५, १८;
-तान् माश्रौ ६, २, ५, २२; काश्रु
५२, ७; हिपि १४ : १८; -तौ
आपश्रौ १५, ६, ६; भाश्रौ ११,
७, ३; हिश्रौ २४, २, ९.

उप-चर्य अप ४४, १, १४.

उप-चर्या- -र्या बौश्रौ १८, ४४ :
१११.

उप-चार^a- पाग ५, ४, ३४; -रः
काश्रौ ५, ८, २; आपश्रौ; या १,
४^३; याशि २, ८६^b; -रम् अशौ
१, १; -राः पाप्रवा १, ८.

भौपचारिक- पा ५, ४, ३४.

उपचार-कल्प- -ल्पम् अप १२,
१, १०.

उपचार-तस (ः) बौश्रौ ११, ४ :
१४; १५, २८ : २१; १७, १४ :
१६.

उपचार^d-भक्ष-प्रायश्चित्-
-त्तिः अप्राय ३, ५.

उप-चारण- -णानि भाश्रौ ११,
४, ३.

†उप-चर्चरि^e [शर्वरी^f हिश्रौ.]
आपश्रौ १४, २९, ३; हिश्रौ
१५, ७, १६.

उपचाकु^g- (> औपचाकवि- पा.)
पाउभौ २, १, ४२; पाग ४, १,
९६.

उप√चि(चयने), उचिनोति आमिष्ट
३, ४, २ : ३; बौपि ३, ३, १२;
†उपचिन्वन्ति काश्रौ २, ८,
१६; बौश्रौ १, ८ : १९; ३, १५:
१२; २२ : ३.

उप-चय- -यः निम् ९, १० : ११;
मीम् ८, ३, ११.

उपचय-स्थान- -ने काश्रौ १०,
५, ६.

उप-चाय^h- पा ३, १, १३१; -य्यम्
आपश्रु १४, ६; हिश्रु ४, ४७.

उप-चीयमान- -नेषु निम् ९, १० :
११.

उप√चृत्, उपचृतति कौम् ३३,
१३; ३६, २०; ४१, १९.

उप-चृय कौम् ३६, १२.

उप-च्छदⁱ- > भौपच्छदⁱ- -नेन
आपश्रौ २२, ११, ४^k; हिश्रौ
१७, ५, १; २.

उप-च्छन्दोम^l- -मेषु निम् ४, ११ :
१९.

उप-जगती^m- -ती ऋप्रा १६, ६५.

उप√जन्, उपजायते आश्रौ
११, ४, ७; आपश्रौ; कप्र २,

६, ८ⁿ; उपजायेते वेज्यो ३७;

उपजायन्ते शाश्रौ १४, २२, २६;
१५, ९, ४; अप ४१, ३, ५;
उपजायेत आमिष्ट २, ५, २ :
४^o; बौष्ट ३, ६, १^३; जैष्ट २, ७ : ४.

उप-जन^o- -नः आश्रौ ९, १, १५;
१२, ४, १८; शाश्रौ ९, १, ७;
१६, १०, ३; या ४, २०; -नम्
आश्रौ ११, २, १७; ३, ७; ११;
४, ७; या १, ३; -नाः या ४, ७.

उप-जनन^p- -नम् माष्ट १, १४,
१८.

उप-जात- -ते शौच ४, १०.

†उप-जायमा (न>) ना- -नाः^q
आपश्रौ १, ११, १०; बौश्रौ १,
३ : १६; भाश्रौ १, १२, ३; माश्रौ
१, १, ३, ७; हिश्रौ १, ३, १९.

उप√जल्प > उप-जल्पितुम् वृदे ४,
५७.

उप-जानु- > भौपजानुक- पा ४,
३, ४०.

उप-जिगमिपत्- उप√गच्छ द्र.

उप-जिघ्री- उप√प्रा द्र.

उप-जिह्व- पा ६, २, १९४.

उप-जिह्वा^r- -ह्वा विध ९६, ९२.

उपजिह्वि(क>)का^r- -का बौश्रौ
१०, १४ : १; माश्रौ ६, १, ३,
२८; अप ४८, १२१; निघ ३,
२९; या ३, २०^३; -काः या
३, २०.

उप√जीव्, उपजीवति शंघ ४६१;
विध ९३, १३; वैध १, ५, ५; या

a) भाप. । b) = लोप-आगम-विकार- । c) सप्र. कौम् ६७, ५; १४०, १ उपाचा^o इति पाभे. ।

d) = बलि- । e) षस. > सस. । श्क्ष-प्रतिः इति पाठः ? यनि. शोषः । f) पाठः ? चर्वति इति शोषः (तु.
काठ ३५, १४) । g) = मुनि-विशेष- । व्यु. ? । h) = (अभिधारणार्थ-) स्थण्डिल-विशेष- । i) = एकाह-विशेष- ।
व्यु. ? । j) स्वार्थे प्र. । k) उप^o इति पाठः ? यनि. शोषः (तु. हिश्रौ. C. च) । l) नाप. । प्रास. । m)
= छन्दो-विशेष- । प्रास. । n) पूर्वेण संधिरार्षः । o) = संज्ञा-विशेष- । p) = प्रजननेन्द्रिय- । गस. । q)
पाभे. वैप १, ९५३ d द्र. । r) = जिह्वासमीपवर्ति-अङ्गविशेष- । व्यु. ? । s) वैप १ द्र. ।

११, ४११; उपजीवन्ति आश्रौ १, ११, ११; बौश्रौ; या ११, ४१; ४७; उपजीवामः जैश्रौ ९ : ९; †उपजीवाथ आपमं २, २०, ३५; आमिगृ ३, २, ६ : ४; हिगृ २, १५, ९; उपजीवन्ताम् जैगृ २, २ : २४१; †उपजीव आपमं २, १९, १४-१६; आमिगृ; †उपजीवत् जैगृ २, १ : ६; २१; २ : २४; उपजीवेत् बौध १, ५, ७७; गौध १०, १८.

†उपजीव्यासम् कौस् ६८, १; २.

उप-जीवन- > नीय, या- -यः, -ये बौश्रौ १४, ५ : २४१.

†उप-जी(व)वा- -वाः अप्राय ६, ६; अत्र १९, ६९.

उप-जीविन्- -विनः बाध १९, २७; शैशि ३०५.

उप-जीव्य वैध १, ७, ६.

उप/जुप्, उप...जुपताम् उप- (जुपताम्) शांगृ ६, ५, २१.

उप-जुह्व^० -ह्वा वैगृ ५, १५ : १५; -ह्वाम् वैगृ १, १९ : १४.

उप/ह्वा, उप...जानीहि शाश्रौ १४, ७, १; २३, १; ३२, १; १४, ३८, १; उप...जानीम शाश्रौ १४, २९, १; ४०, १; ५०, १.

उप-ज्ञा- > ०ज्ञो (ज्ञा-उ) पक्रम- -मम् पा २, ४, २१.

उप-ज्ञात- -ते पा ४, ३, ११५.

उप-ज्मन्^० -ज्मन् ऋत ३, ३, ९१.

उप/ज्वल्, उपज्वालयति माश्रौ ४, २, १७.

उप-ज्वलन^० -नः आपश्रौ १४, २४, ५.

!उपतः अप्राय २, ७.

उप/तप्, उपतपति आमिगृ २, ५, २ : ५; उपतपेत् माश्रौ ३, ८, ३; आगृ ४, १, १.

उपतप्येत् काश्रौ २५, १३, १९.

उप-तपत्^० -पत् आपश्रौ २०, ७, ९;

बौश्रौ १४, २७ : ३; १५, ८ : ९;

हिश्रौ १४, २, २२; वीगृ ३, ६, १;

-पता बौश्रौ १८, ३० : ८;

आमिगृ ३, ५, १ : १; बौपि १,

१ : १.

उप-तप्त,सा- -सानाम् आपश्रौ ८,

६, ३; बौश्रौ ५, ५ : ५; वैश्रौ ८,

१० : ८; -साभिः वैश्रौ २१,

७ : १; -सासु काश्रौ २२, ३,

२३; वीगृ २, ७, ३.

उप-ताप- -पः आपश्रौ १४, २०,

५; वैश्रौ २१, ६ : ६; हिश्रौ १५,

५, २४; कौस् १३५, ९^०१;

अप्राय २, ६^०१; ३, ९; -पम्

विध ९६, २८; -पे आश्रौ ६,

९, १; आगृ ४, ८, ४०; पावा

३, ३, १६.

उपताप- -पात् पावाग ५, २,

९७.

उपनाप-शरीर-विकार- -रयोः

पावा ६, ४, २४.

उपतापिन्- -पिनः अप्राय २,

९^०; -पी वाधूश्रौ ३, ४५ : १;

जैगृ २, ४ : ९.

उपतापिनी- -नीः कौस्

१९, १; -नीनाम् शाश्रौ १४,

२२, १६; -नीषु द्रागृ ४, ३,

१३.

उप/तम् > उप-ताम्य द्रागृ १, २,

२२; ३, ५, १९.

उप-तल्प^० -ल्पान् आपश्रौ २०, १०, ४; ५; हिश्रौ १४, ३, १; २.

†उप/तस्^०, उपातसत् शाश्रौ १२, २४, २; लाश्रौ ९, १०, ५.

उप-तार(का)क^० -काः कौस् १०३, १.

उपतारक-शङ्का- -ङ्क्याम् कौस् ९३, ११.

उप/तुप > उप-तोष्य आगृ १, ६, ६; वीध १, ११, ७.

उप/तृद्, उपतृणति आपश्रौ ७, १९, १; भाश्रौ ७, १४, १४; माश्रौ १, ८, ४, १२; वाश्रौ १, ६, ५, २५; वैश्रौ १०, १५ : ३; हिश्रौ ४, ४, १६; आमिगृ ३, २, ५ : ८.

उप-तृथ बौश्रौ ४, ६ : ६३; ८ : २७; भाश्रौ ७, १३, ७; वैश्रौ १०, १७ : १२.

उप/तृ > उप-तीर्ण- -र्णे काश्रौ २, ८, १४.

उप-तैल- } पा ६, २, १९४.

उप-तैव^० }

उप-त्य(क)का^० - पा ५, २, ३४; पावा ७, ३, ४५.

उप/दंश > उप-दंश^१ - > श-घृत-गुल-दधि-फल-युक्त^१ - -क्तम् वैध ३, १०, ५.

उप-दंशम् पा ३, ४, ४७.

उप-दग्ध- उप/दह द्र.

उप-दधत्- उप/धा द्र.

!उपदम्भिषः^१ गो १, ३४१.

†उपदम्भिषक्^१ आपश्रौ ४, १०, ४; १३, ७, १३; भाश्रौ ४, १५, ३; हिश्रौ ६, ३, २.

a) वैप १ द्र. । b) नाप. । प्रास. । c) नाप. । गस. उप. कर्तरि कृत् । d) न. = रोग-विशेष- ।

e) उपसृष्टय धा. प्रवेशने वृत्तिः । f) = उप-ग्रह- । प्रास. । g) उप-नैष- इति पाका. । h) = पूर्वतासज्-प्रवेश- । i) = उपस्कर- । उप. कर्मणि षञ् प्र. । j) गुल्- = गुड- । k) पाठः ? शीघ्रः वैप १, ८९८ b द्र. ।

उप√दय् (रक्षणे) > उप-दया- >
 ष्या-कर्मन्- -र्मा या ४, १७;
 १०, १६.

उप-दशारात्र^१- -त्रम् निस् ५,
 १० : १.

उप√दस्, उपदस्यति बौश्रौ १४,
 २९ : १०; उपदस्यन्ति आमिगृ
 २, ५, १० : ३०^१; या ७, २३;
 उपदस्यामि वैश्रौ १२, १३ :
 १२; उपदस्येत् आपश्रौ १४,
 २४, ७×५; वौश्रौ; उप...दस्येत्
 माश्रौ ३, ६, १७; हिश्रौ १५, ७,
 ३; उपदस्येरन् अप्राय ६, ५;
 उपदस्येयुः आपश्रौ ९, १२, २;
 माश्रौ ३, ६, १२; वैश्रौ २०, २४ :
 ६; उप...दस्येयुः माश्रौ ३, ६,
 १७; हिश्रौ १५, ७, ३.

१^१उपदसत् आपश्रौ ४, १०, ९^b;
 वौश्रौ ३, १८ : ३०^b; माश्रौ ४,
 १६, १^b; हिश्रौ ६, ३, ३^b; आगृ
 २, २, ३^c; उपदसः वैताश्रौ ३,
 २०^b.

उपदासयति आपश्रौ १४, १५,
 १^१; हिश्रौ १०, ७, १७^१; या २,
 १७; ७, २३.

उप-दस्त- -स्तः माश्रौ ४, ४,
 ३८; -स्तम् वौश्रौ २५, २२ :
 १; -स्तान् काश्रौसं ३३ : ९;
 -स्तानाम् आपश्रौ १४, २७, ५;
 वैश्रौ २१, १४ : ६; हिश्रौ १५,
 ७, ४; -स्ते काश्रौसं ३३ : ७;
 -स्तेषु वैश्रौ २१, १४ : ७.

उप√दह् > उप-दग्ध- -ग्धम् कौस्
 ६९, ९.

उप√दा, उपददाति वाश्रौ ३, ३, ७.
 उप-दा^१- -दाम् वैश्रौ १२, २० : १३.

उप√दिश्, उपदिशति आश्रौ १०,
 ७, १-८; ९^१; शाश्रौ; या १३, १०;
 उपदिशन्ति आपश्रौ १०, १६,
 ६; बौश्रौ; कौगृ २, ७, २२^१;
 शागृ २, १२, ७; उपदिशेत् वौश्रौ
 ९, १९ : ४१; २० : १६; बौगृ;
 उपदिशेयुः आगृ १, १४, ८.

उपदेक्ष्यामः जैश्रौ २२ : १; २३ :
 १; जैश्रौप १; गोगृ १, १, १;
 तैप्रा २३, २२.

उपदिश्यते आमिगृ २, ६, ४ :
 १६; कप्र; उपदिश्यन्ते मीस्
 ६, २, २७; उपदिश्येत मीस्
 २, २, ६; ५, ३, १; ६, २, ७;
 उपदिश्येरन् मीस् ७, २, ३; ११,
 २, ७.

उप-दिश्य वाध १७, ६६.

उप-दिश्यमान- -नान् हिश्रौ ६,
 १, ९.

उप-दिष्ट, ष्टा- -ष्टः बौध १, १, १;
 ऋप्रा ३, २४; -ष्टम् काश्रु २,
 १०; -ष्टा ऋप्रा ७, ३; -ष्टाः
 आश्रौ २, १, १; शुप्रा १, ३४;
 -ष्टानि वैगृ ६५ : ५; -ष्टौ
 माश्रौ ४, २, २.

उपदिष्ट-त्व- -त्वात् मीस् ३, २,
 २३; ११, ४, ५; १२, ३, ३१.

उप-देश^१- पाग ४, ४, १२; -शः
 माश्रौ ४, १, ५; वाध; या १, १;
 पावा १, १, ६९^३; ४, १, ३;
 पापवा १५; १७; -शस्य या ३,
 २१; पावा ७, २, १४; मीस् १२,
 ३, ३४; -शात् शाश्रौ १, ३, ८;
 काश्रौ ८, ५, ३४; आपश्रौ २४,
 १४, १८; काश्रौसं २५ : ४;
 बौगृ ३, २, ६१; कप्र ३, ७, ७;

अप ३५, १, ४; मीस् ३, ७, ४४;
 ९, १, ५१; १०, ८, २२; -शाथ
 या १, २०; -शे पा १, ३, २;
 ६, १, ४५; ४, ६२; ७, २, १०;
 ६२; ८, ४, १८; पावा ६, १, ९;
 ७, २, १०; मीस् ३, २, ९; -शेन
 अप ४७, १, ५; ६; २, ९; १०;
 ३, १; या १, २०.

बौपदेशिक- पा ४, ४,
 १२; -कम् पावा १, १, २२.

उपदेश- -शम्, -शस्य पावा
 ८, ४, १४; -शात् पा ६, १,
 १८६; -शे पावा ६, २, ५०.

उपदेश-गृह्णा(न-अर्थ)- -र्थम्
 वैध १, ११, १२.

उपदेश-वचन- -नम् पावा १,
 १, २४; ६, १, ९; ५०; ४, ६२;
 ७, २, १०; -नात् पावा ३, १,
 ३६; ६, १, १९१; -ने पावा ६,
 १, १९१.

उपदेश-विशेषण-त्व- -त्वात्
 पावा ६, १, १८२.

उपदेश-समाख्यान- -नेन मीस्
 ३, ७, ४२.

उपदेश-सामर्थ्य- -र्थात् पावा
 ६, १, ६५.

उपदेशा(श-अ)र्थ- -र्थः मीस्
 १०, ८, ३९; -र्थे ऋप्रा १३, ४९;
 पाशि ३०; याशि १, ५०; कौशि
 ६१; नाशि १, ६, २१.

उपदेशिन्- > षि-वत् >
 उवद्-वचन- -नम् पावा ६, १,
 १३२; ३, ५१; ७, १, २; ३७;
 ५८; ८९; २, ९९; १०७.

उपदेशिवह्वचना(न-आ)
 नर्थक्य- -क्यम् पावा ७, १, २.

a) नाप. । प्रास. । b) प.भे. वैप १, ९२८ d द. । c) सप्र. उपदसत् <> ष्वगात् इति पाठे. ।

d) वैप १ द. । e) षिष्वा इति पाठः ? यनि. षोषः (तु. शाण्.) । f) गस. उा. भावाद्यर्थेषु षञ् प्र. ।

उप-देशन- ने पावा १,३, २.
 उप-देश्य- > ङ्य-स्व- -स्वात् मीस्
 १०,३,६; १६.
 उप-देश्- पाठश्च २,९४.
 उप-दिग्- -दिशः या २,१५; ६,१.
 उपदीक- > -क-संतत- -ताः
 आपश्रौ १५,१६,५; भाश्रौ ११,
 १६,८; हिश्रौ २४,६,१५.
 उप √ दीक्ष्, उपदीक्षत् अप्राय ६,७.
 उप-दीक्षमाण- -णाः^१ हिश्रौ १६,
 १,३९; -णे आपश्रौ २१,३,७.
 उप-दीक्षा- -क्षा अप्राय ३, ९;
 -क्षाम् अप्राय ६,७.
 उपदीक्षिन्- -क्षी काश्रौ २५,
 १४, ३.
 उप-दीक्ष्य काश्रौ २५, १३, २७;
 अप्राय ३,९.
 उप √ दीप् > उप-दीप्यमान- -नः
 वाधूश्रौ ३,६ : ३.
 ऋ उप √ दुह्, उपदुहताम् वीपि २,
 ९, ५; ११, २; उपदुहन्ताम्
 आमिगृ ३,३, १ : २४; ४, ३ :
 ४; ६; ७; वीपि ३,४,४-६; वैगृ
 ५, ५ : ९; ११; १३; गौपि १,
 ३,४-६.
 उप-दोह- > °ह-दक्षिण- -णम्
 बौश्रौ २४,२९ : २.
 उप √ हृग्, उपो(प+उ)अदृशि या
 ४,१६†.
 उप-दृष्टि- -ष्टिः निसू २, २ : ५;
 १४.
 उप-दृष्ट- -ष्टा आपश्रौ ४,९,६; १०,
 १,११; भाश्रौ; ऋभाश्रौ १,४:७६;

११^h; हिगृ २,११,४^h†^h; -ष्टारः
 आपश्रौ १०,२०,१८; १८,१९,
 ८; भाश्रौ १०,१३, ११; हिश्रौ
 ७,१,७५; १३,६,३२; -ष्टारम्
 वैताश्रौ १८,१५; कौसू ४९,१७;
 -†ष्टे आश्रौ १,२,१; शाश्रौ १,
 ४,५; आपश्रौ.
 उप √ दै(शोधने), उपादास्त पावा १,
 १,३९.
 उप √ द्रु, ऋ उपद्रव आश्रौ ४, ७, ४;
 शाश्रौ; उपद्रवेत् पागृ १, १६,
 २४.
 उप-द्रव- -वः अप ५८^r, ४,२; ६०,
 १, २; -वम् अप ७०, १२, ३;
 -वाः अप ३१,३, ५; --वेषु अप
 ३१,४,४.
 उपद्रव-निघन- -ने जैश्रौ २६ :
 १३.
 उपद्रव-पीडित- -तः अप २३,
 ८, १.
 उप-द्रुत- -तम् शाश्रौ १२, १३,
 ५†.
 उप √ धम्, धमा, उपधमति माश्रौ १,
 ५, ३, ७; उपधमेत् शंघ ८९;
 वाध १२, २७; आपध १,१५,
 २०; हिध १,४, ७९.
 उप-धमा- -धमा शैशि १९७; पाशि
 १४; माशि १०, ४; याशि २,
 ४६; नाशि २,५,४.
 उप-ध्मान- > उपध्मानीय^m- -यः
 अप ४७,१,१०; २,२; शुप्रा ८,
 २०; शैशि २९; ४२; पाशि २१;
 याशि २, १.

उपध्मानीय-संहि (त >) ता-
 -ता याशि २, ५७.
 उप √ धा, उपधत्ते काश्रौ ७, ४, ३;
 बौश्रौ १४, १९ : ९; ११; १२;
 १५, २९; ३३; वैश्रौ १२, ९; १२;
 उपदधाति काश्रौ ८, ५, २२ x x;
 आपश्रौ; उप...दधाति वाश्रौ २,
 २, ४, २२; या ७, ३१†; उपधत्तः
 भाश्रौ ८, ५, १४; वाश्रौ २, २, २,
 १७; उपदधति द्राश्रौ २, २,
 २६; लाश्रौ १, ६, २४; वैताश्रौ
 ३१, २७; ऋ उपदधे आश्रौ २, ३,
 १५; ४, २५; आपश्रौ x x;
 १९, ११, ११^m; बौश्रौ १९, २;
 २०^m; ऋ उपदधामि काश्रौ ४, १४,
 १३; आपश्रौ; हिश्रौ २३, २, ११^m
 ऋ उप...दधामि आपश्रौ ४, ६, ३;
 भाश्रौ ४, ९, १; वैश्रौ ५, ६ : ९;
 हिश्रौ ६, २, १२; ऋ उपदधातु
 १०, २४; १६; १९, १; २७; २२,
 ५ : १६; वैश्रौ १८, १४ : २१;
 उपधेहि या ४, २०; उपाधत्त
 वाधूश्रौ ४, १९^r; २; ५; ८; ११;
 उपाधत्त भाशि ४८†; उपदधीत्
 वाश्रौ २, २, ५, २२; कौसू १८,
 २७ x x; उपदध्यात् आश्रौ ६,
 ३, ११; १०, ५, ६; आपश्रौ;
 उपदध्युः द्राश्रौ २, १, ८; लाश्रौ
 १, ५, ५; ८, ८, १६.
 उपदधी निसू ८, ४ : ३४;
 ऋ उप...अधाम् आपमं १, १५,
 ६; कौसू ३६, २१; ऋप्रा २, ४४.
 उपधीयते वाधूश्रौ ४, १११ : १;

a) नाप. । प्रास. । b) = उप-वीक- (वैप १ द्र.) । c) विप. । बस. । d) पाठः ? णे इति श्लोचः (तु. आपश्रौ.) । e) विप. । बस. पूष. = दोहन-पात्र- । f) गस. उप. भाप. । g) पाभे. पृ १६८ p द्र. । h) सपा. उपद्रष्टा <> उपश्रोता इति पाभे. । i) = उत्पात- । उप. अप् प्र. । j) पूष. = सामभाग-विशेष- । k) = संघि-विशेष- । l) = उपध्मानीय- । m) = पारिभाषिक-संज्ञा- । n) पाभे. वैप १ परि. उपदधातु काठ ३८, १३ टि. द्र. ।

निसू ९, १० : १९; हिशु २, ५८;
उपधीयन्ते आपश्चौ १७, २३, ३;
१९, १४, ३; बौश्रौ; उपधीयेरन्
निसू ३, ७ : १७.

उप-दधत्- -धत् बौश्रौ १७, २४ :
२; २६, २७ : १; २; ४.

उप-धा^०- -धा ऋप्रा ४, २९;
११, ३२; शुप्रा १, ३५; ३,
१३०; ४, ४; अंप्रा ३, २,
१७; शौच १, ९२; पाग १, १,
३७^०; पा १, १, ६५; -धाः ऋप्रा
५, २८; -धाम् या ५, १२;
ऋप्रा १३, ३२; १४, ५४;
-धायाः पा ६, ४, ७; २०; २४;
८९; १४९; ७, १, १०१; २, ११६;
४, १; ८, २, ९; ७६; पावा ३, २,
१३५; ७, ३, १०९; -धायाम्
पा ८, २, ७८.

उपधा-ग्रहण- -णम् पावा ६, १,
१३; १६७; ७, ४, १.

उपधाम्रहणा(ण-आ)नर्थक्य-
-क्यम् पावा ६, ४, १४९.

उपधा-दीर्घ-त्व- -त्वम् पावा ६,
१, २०३; ७, २, २७; -स्त्रे पावा
८, २, ७८.

उपधादीर्घत्व-प्रसङ्ग- -ङ्गः
पावा ६, ४, १३.

उपधा(धा-अ)धिकार- -रः
पावा ६, ४, १६.

उपधा-निभो(भ-उ)द(य>)
या- -याः ऋप्रा २, ८१.

उपधा-रोरवीत्य(ति-अ)र्थ-
-र्थम् पावा १, १, ५.

उपधा-लोप- -पः या २, १; -वे
पावा ७, ३, ५४.

उपधालोप-प्रसङ्ग- -ङ्गः
पावा ६, ४, १३५.

उपधालोपिन्- -पिनः पा
४, १, २८; पावा ४, १, ७; ७५.

उपधा-विकार- -रः या २, १.
उपधा-संज्ञा- -ज्ञायाम् पावा १,
१, ६५.

उपधा-ह्रस्व-त्व- -त्वम् पावा १,
१, ५१; ५७; ६, ४, १३०; ७, २,
२७; ३, ८७; -स्त्रे पावा ७,
४, १.

उप-धान^०- -नः पा ४, ४, १२५^d;
-नम् बौश्रौ १०, ३९ : २××;
माश्रौ; -नस्य बौश्रौ १९, ६ :
४; -नात् काश्रौ ४, २, १४; १६,
७, १४; आपश्चौ; -ने आपश्चौ
१७, २६, ८; बौश्रौ; -नेन
बौश्रौ २५, ३० : १४; -नैः
आपश्चौ १६, २७, १९; माश्रौ
६, १, ७, ३१^२; वैश्रौ १८,
१९ : २४.

उपधान-कल्प- -ल्पः आपश्चौ
१७, २५, ३; ६; हिश्रौ ८, ५, १४;
११, १, ३.

उपधान-काल- -ले आपश्चौ
८, १०, २××; माश्रौ.

उपधान-मन्त्र- -न्त्रान् काश्रौ
१७, ५, २३.

उपधान-रज्जु- -ज्जुः बौश्रौ
२६, ५ : ३२; १० : १३.

उपधान-लि(ङ्ग>)ङ्गा^०- -ङ्गया
आपश्चौ ९, ६.

उपधान-वत् मीसू ९, ४, ४८.
उपधान-वेला- -लायाम् माश्रौ
६, २, ५, ८.

उपधाना(न-अ)नुपूर्व- -वैण
वाश्रौ २, १, ७, १२.

उपधानि(क>)का^१- -का याशि
२, ७२.

उपधानिन्- -निनः याशि २,
७३.

उपधानो(न-उ)पस्थान- -नम्
कौसू २४, ४५.

उप-धाय आपश्चौ १, ७, ३; शाश्रौ
१७, १०, ४; काश्रौ; उपधाय-
ऽउपधाय काश्रौ १७, ५, २१;
वैश्रौ १८, १७ : २३.

उप-धास्यत्- -स्यताम् आपश्चौ १४,
८, ६; हिश्रौ १०, ८, २१; -स्यन्
बौश्रौ १०, २७ : ७××; वैश्रौ
१८, १६ : ७७; २१ : ४१.

उप-धि^०- -धिः जैश्रौका ११६;
-धिम् बौश्रौ १, ८ : १४; जैश्रौका
१२०.

औपधेय- पा ५, १, १३.

उपधि-कृत- -ताः विध ७, ७.

उपधि-देविन्^०- -विनाम् विध ५,
१३५.

उपधि-स्थान- -ने निसू ९,
१० : ४.

उपध्य(धि-अ)भाव- -वात्
पावा ५, १, १३.

उपध्य(धि-अ)र्थ- -र्थम् पावा
५, १, १३.

उप-धीयमान, ना- -नः ऋप्रा ४, ४;
-नाः निसू ३, ७ : १६; १९;
-नाम् निसू ८, ११ : १४;
-नायाः आपश्चौ १४, ८, ५;
हिश्रौ १०, ८, १६; -नासु द्राश्रौ
१४, ४, ७; लाश्रौ ५, ८, ७; -ने

a) = संज्ञा-विशेष- । b) भेदार्थे अव्य. (तु. पासित.) । c) माप., नाप. (उप-बर्हण-) । गस. ।

d) विप. (मन्त्र-) । e) विप. । बस. । f) = अनुनासिका- । मत्वर्थे ठन् प्र. । g) = कोण-क्षेत्र- इति बौश्रौ.
सूची १, [चतुर्दशमात्र-] ओक्कर- [जैश्रौका.], कपट- प्र. । शिष्टं वैप १ द्र. । h) उस. उप. < ✓ दिव् ।

जैश्रौ ४ : २१^०; २३ : ७१^०;
जैश्रौप २; ९; द्राश्रौ २, १, ११;
लाश्रौ १, ५, ८.

उप-हित,ता- पाग ६, २, १४६^०;
-तः ऋप्रा ६, १२; -तम् आपश्रौ
१६, २५, २; माश्रौ ३, १, २४^०;
वैश्रौ १८, १८ : ४; जैश्रौ १, ५ :
५; -तस्य आपश्रौ १६, २४,
१; माश्रौ ३, १, २४; वैश्रौ १८,
१७ : ३३; -ता कौश्र १, १०,
३; शांश्र १, १६, ४; -ताः आपश्रौ
१६, १६, १; ३३, २; वैश्रौ १८,
१४ : ९; हिश्रौ ११, ८, ३;
-तानाम् आपश्रौ ९, १३, ११;
माश्रौ ९, १६, ५; हिश्रौ १५, ४, ९;
-तानि बौश्रौ १२, १० : ४×४;
-ताम् आपश्रौ १६, २३, ७;
२८, ३; वैश्रौ; -ते निस् १०,
६ : १०; ऋप्रा ११, ५१; -तेन
आश्रौ ८, १२, १३; या ५, १२;
ऋप्रा २, ३८; -तेषु वैश्रौ ८,
१० : ८; हिश्रौ ५, २, २६.

उपधारय^०- पावाग ४, १, १७५.

उप/धाव् (गतौ), उपधावति वैश्रौ
२१, १४ : ८; जैश्र १, २ : १९^०;
‡उपधावामि^० पाश्र १, ११, २^०;
आमिश्र १, ५, ५ : २; ६; ७;
हिश्र १, २४, १^०; जैश्र १, २ :
१९^०; २२ : १४; १६; १८; २०;
२२; उपधाव शाश्रौ १५, १८,
१; २२, १^०; उपधावानि शाश्रौ
१५, २१, १; उपाधावत् बौश्रौ
१४, १६ : १२; आमिश्र २, ५,
५ : ८^०; वाध ५, ८^०; उपा-
धावन् शाश्रौ १४, ७, १; २३, १;

३२, १; ३८, १; ऋप्रा १, २, ७; वृदे
७, ५५; उपधावेयुः आपश्रौ ९,
१२, ४.

उप-धावत्- -वन्तम् कौसू ४८, ४१.

उप-धि-प्रभृ., उप/धाद्.

उप-धुर्- -धुरः काश्र ७३, ५^०;

-धूर्भिः काश्र ४७, १३; ७२, ५.

उप/धूप्, उपधूपयति कौसू १२७,
१.

उप-धूपयत्- -यति कौसू ९३, ३४.

उप-धूपित- -तम् अप ७२, १, २.

उप/धृ, उपधरेरन् आश्रौ ९, ११, १.

उपाधारयत् वाधूश्रौ ४, ५१ :

२; उप...अधारयताम् वाधूश्रौ

४, ५१ : ४; उपधारयेत् बौश्रौ

२७, ११ : १४; अप ५२, ११,

१; ऋप्रा १७, ४.

उप...अदीधरत् वाधूश्रौ ४,

५१ : ३.

उप/ध्मा- प्रभृ. उप/धम् द.

उप/ध्वंस्, ध्वस्, उपध्वंसयतः

माश्रौ २, ४, १, ७.

उप-ध्वस्त,स्ता- -स्तम् बौश्रौ १२,

५ : २७; १७ : ५; -स्ता

आपश्रौ २२, १५, ८; हिश्रौ ७,

२, १६; -स्ताः आपश्रौ २०,

१४, ७; हिश्रौ १४, ३, १६.

-स्ताम् काश्रौ १३, ४, १४.

उप/नम्, उपनमति बौश्रौ २४, १५ :

६; वाधूश्रौ ३, २० : ४; ‡उप...

नमति आपश्रौ ६, १९, ३;

वाधूश्रौ ४, ९० : ५; उपनमतु

बौश्रौ २०, १६ : ३७; उपा-

नमत बौश्रौ १८, ३३ : २;

उपानमन् बौश्रौ १६, २८ : ५^०;

उपनमेत् माश्रौ ५, २, २, १६
उपनमेत् आश्रौ. १२, ८, २३;
आपश्रौ; उप...नमेत् वाधूश्रौ ४-
९० : २.

उपानंसीत् वाधूश्रौ ३, २० : ३.
उपनामयेत् काश्र १४, ६; ५१,
१२; गोश्र २, १, ६.

उप-नत- पाग ५, २, ८८; -तः
बौश्रौ ४, १ : १६; वैश्रौ १०,
१ : १४; हिश्रौ ४, १, १७^०;
-तम् आपश्रौ ७, १, १७; १०,
११; हिश्रौ ४, १, १८.

उपनतिन्- पा ५, २, ८८.

उप-नामुक्^०- -क्ः बौश्रौ २०, ७ :
२६; -क्म् हिश्रौ १०, ४, १३.

उप-नय- प्रभृ. उप/नी द.

उप/नह्, उपनहति काश्रौ १६, ३.
५; आपश्रौ १६, ३, ७; १९, २६,
१; बौश्रौ; ‡उपनहामि बौश्रौ
१३, ३८ : ११; माश्रौ ५, २,
६, ७; शांश्र २, २, ३^०; पाश्र २, २,
११; अप्राय ६, २; उपनहोत्
वैश्रौ १८, १ : ४७.

उप-नह्,हा- -हस्य आपश्रौ १२,
७, १९; बौश्रौ १४, १२ : ४;
वैश्रौ १५, १० : १; १३ : २;
हिश्रौ ८, २, ३८; -हान् आपश्रौ
१९, ५, ७; वाश्रौ ३, १, १, ३४;
हिश्रौ २३, १, ६; -हाम् वैश्रौ
१८, १ : ५७.

उप-नह्य आश्रौ १२, ४, ५^०; शाश्रौ.
उप-नाह^१- -हः बौश्रौ १४, १४ : ६^०.
उ(प>)पा-नह^१- पाग ५, ४,
१०७; १५१; -नत् वैश्र ५, १३ :
२०; -नह्याम् लाश्रौ ९, १,

a) 'मने इति पाठः? नि. दोषः । b) 'हत्- इति पाका. । c) तु. पागम । व्यु. ? । d) पाभे.
वैप २, ३ सं. उपधावामि संत्रा १, ४, १ टि. द. । e) = मन्त्र-विशेष- । प्रास. । f) पाभे. पृ ५७५ गृ द. ।
g) उक्त् प्र. उत्सं. (पा ३, २, १५४) । h) सप्र. उपनहामि <> उपव्ययामि इति पाभे. । i) वैप १ द. ।

२४; जैगृ १, १६ : ४; -नहः
बौश्रौ १०, २३ : १४××; वैश्रौ
१८, १४ : ३२; -नहम् माश्रौ
६, २, ४, १६; -नहि आश्रौ ८,
३, १९; वैताश्रौ ३२, २५†;
-नहोः गोश्रु ३, १, २३; -नहौ
काश्रौ २२, ४, २३; आपश्रौ.

औपानह- पा ५, १, १४.

उपानच्छत्र- त्रे वैध २, ३, ३.

उपानच्छत्र-संयु(क)का-

-क्ताम् अप ६९, ६, ३.

उपानच्छत्र-वासः-कूर्चा (च-
आ) दि- -दीनि गौघ १०, ५८.

उपानच्छत्र- पा ५, ४, १५१. १

उपानत्-प्रदातृ- -ता वाध २९,
१५.

उपानत्-प्रदान- -नेन विध ९२,
२८.

उपानद्-युग- -गम् आश्रु ३,
८, १.

उपानह- पा ५, ४, १०७.

उपानह-बल-छत्र-दर्शन^b-

-ने अप ६८, २, ४२.

उपानहिन्^b- -ही आपध १,
८, २^c; हिध १, २, ९०.

उप-नाम्नि- -न्दिम् आमिगृ २, ३,
२ : १३^d.

उप-नामुक- उप-नम् द्र.

उप-नायन- उप-नी द्र.

उप-नाह- उप-नह् द्र.

उप-नि-क्रम- > उपनि-क्रम्य

वाधूश्रौ ३, १४ : १५; १८.

उप-नि. नी | क्ष- > उप-निक्ष्य बौश्रौ
२, ९ : ३४.

उप-नीक्ष्य आमिगृ २, ५, ८ : ७;
बौगृ १, १, ९; २, ७, १३; १४;
११, १४.

उप-नि-क्षिप् > उपनि-क्षिप्य बौगृ
२, ११, ३६; ३७; बौपि २, ९,
१८; १९; जैगृ २, १ : ३०.

उप-नि-गा > उपनि-गाय हिश्रौ
१७, ५, २५^e.

उप-नि-गृह्, ग्रह्, उपनिगृहीते
बौश्रौ ३, ३० : ११; १३, २१ :
६. उपनिगृह्णाति आपश्रौ १०,
२४, १०; बौश्रौ; उपनिगृह्णी-
यात् बौश्रौ २१, १३ : ७.

उपनि-गृह्य बौश्रौ ६, २५ : २१;
२७ : २४; २१, १७ : १०;
वैश्रौ १५, ३१ : १३.

उपनि-ग्रहण- -णे बौश्रौ २१, १२ :
१५.

उपनि-ग्राहम् आपश्रौ १२, २५, १^f;
बौश्रौ २१, २० : १३; वैश्रौ १५,
३२ : ४; ६; हिश्रौ ८, ७, ५२^g.

उपनिजस्त^f- (> औपनिजस्तिक-
पा) पाग ४, ४, १२.

उप-नि-धा, उपनिदधाति आपश्रौ
१४, २२, ६××; वाधूश्रौ; कौगृ
१, २१, ६^h; उपनिदधते बौश्रौ
२६, २४ : ३; उपनिदधति शाश्रौ
१३, ११, ९; १७, ७, ११; १२;
उपनिदधीत द्राश्रौ १२, ३, १७;
लाश्रौ ४, ११, १७; गोश्रु ४, ९,
१६; उपनिदध्यात् बौश्रौ २०,
२१ : १८; १९; २१, ५ : ३; द्राश्रु
३, ५, १०; ४, ४, २; हिध २, १,
१३; उप-निदध्यात् वाधूश्रौ

३, ३४ : ११; उपनिदध्युः माश्रौ
३, ८, ७; आमिगृ ३, ५, ७ : १५;
गोश्रु २, ९, ६; अप्राय ६, ७ⁱ.

उपनि-धाय आश्रौ २, ५, १०; शाश्रौ.
उपनि-हित, ता- -तम् जैगृ १, ४ :
३०; -तयोः आश्रौ ४, ९, ६;
-तानि आश्रु १, १७, ३.

उप-नि-नह् > उपनि-नह्य आमिगृ
२, ५, १० : २०.

उप-नि-नी, उपनिनयते कौम् ४७,
५६; उपनिनयति बौश्रौ २, ९ :
१७; भाश्रौ १, ८, ६; १०, १५,
१६; भाश्रु २, १२ : ५; गोश्रु ३,
७, १४; उपनिनयन्ति काश्रौ ७,
९, ३१; उपनिनयेत् बौश्रौ २०,
२६ : २०; भाश्रौ ७, ३, ९;
हिश्रौ १५, २, १४; अप्राय १,
५; अप ४५, १, ६; उपनिनीयुः^h
हिश्रौ १५, ५, ३७.

उपनि-नय- -ये बौश्रौ २२, ५ : १४.

उपनि-नयन- -ने बौश्रौ २०, २६ :
४८; २१, ६ : ७; १२ : १; २२,
४ : ३०; १६ : १४.

उपनि-नीय शाश्रौ ३, २०, ४;
काश्रौ २५, २, २५; आपश्रौ.

उपनिन्दु- (> औपनिन्दवि-) उप-
विन्दु- टि. द्र.

उप-नि-पत्, उपनिपातयति हिपि
५ : ७; उपनिपातयन्ति आश्रौ
१०, ८, ९; शाश्रौ १६, ३, ३३;
१३, ७.

उप-नि-पद्, णिउप-निपद्यते
आमिगृ ३, ५, ६ : १३; बौपि १,
५ : १.

a) पाठः ? 'नूद्ब' इति शोधः संभाव्यते । b) मत्वर्थे इनिः प्र. उर्ल. (पा ५, २, ११६) । c) कञ्चु-
कोपानहिन्- इति [पक्षे] भाष्यकारः । d) पाठः ? 'न्दि [न.] इति शोधः संभाव्यते । e) सपा. जैत्रा १३५
उपावहाय इति, आपश्रौ २२, १३, २ ? उपवहाय इति च पाठे. । f) तु. पागम. । g) सपा. शाश्रु १, २८, ७
उपस्त्राप्य इति पाठे. । h) = उपनिनयेयुः ।

उप-नि ✓पीङ् > उपनि-पीङ्य माश्रौ
५, १, १०, ६४.

उप-नि ✓बष्, ण्ष, उपनिबध्नाति
बौश्रौ ६, २५ : ९; ११; २९ : ३.

उप-नि ✓मन्त्रि (< मन्त्र), उपनि-
मन्त्रयेत् शंघ १९८.

उपनि-मन्त्रित- -तः विध ६९, ४.

उप-नि ✓यच्छ, यम्, उपनियच्छति
भाश्रौ १०, ३, १२; भाग्य १, २८ :
१३.

उपनि-यस्य बौश्रौ २, ८ : ७.

उपनि-यस्य आपश्रौ ११, १६, १५;
माश्रौ.

उप-नि ✓युञ्ज, उपनियुनक्ति बौश्रौ
११, ६ : २५; १२, ७ : ३५; १५,
२४ : ३.

उप-निर् ✓ह, उपनिर्हरन्ति आमिग्य
२, १, ३ : १०; भाग्य १, २६ :
१; ३; हिग्य २, ३, ४; ४, ८; उप-
निर्हरत् भाग्य १, २५ : १६.

उपनिर्-हस्य आपश्रौ ११, २१,
३; बौश्रौ; ९, ५ : ३१; हिश्रौ २४,
२, १०^{१६}.

उप-नि ✓वष्, उपनिवपति काश्रौ
५, ४, १८; माश्रौ ४, १, १२;
वैश्रौ १३, १६ : १२; हिश्रौ १,
६, ७२; उपनिवपेयुः आपश्रौ
२०, ५, १६; हिश्रौ १४, १, ४७.

उपनि-वपन- -नात् काश्रौ ८, ३,
१९.

उपन्यु(नि-उ)स- -सम् आपश्रौ
२०, १६, २०; हिश्रौ १४, ३, ४८.

उपन्युस-संभा(र >) रा^{१०} - -रा
बौश्रौ १७, १७ : ४.

उपन्यु(नि-उ)ष्य आपश्रौ १६, ६, ३;

२१, ३, ८; वाश्रौ २, १, १, ५०.

?उपनिवृक्षम् वाधूश्रौ ४, १९ : ३६^०.

उप-नि ✓वृत्, उपनिवर्तते बौश्रौ
२६, २९ : ७; उपनिवर्तन्ते
वाधूश्रौ ३, ८३ : १८.

उपनि-वृत्य ऋप्रा ११, ६०.

उप-नि ✓श्रि, उपनिश्रयति बौश्रौ
२४, १९ : ८.

उपनि-श्रित- -तः शाश्रौ ५, १३, ५.

†उप-नि ✓ष (< स)द्, ?उपनिषदे
बौश्रौ १, १२ : ३१; भाश्रौ २, ५,
९; हिश्रौ १, ७, २१; उपनिषदेयम्
माश्रौ १, २, ५, ११; उपनि-
षदेम कौसू ७२, ३२.

उपनि-षद्^१ - पाग ४, ३, ७३; ११८^०;

४, १२; पावाग ३, ३, १०८^०;

-षत् ऋश्र २, १, ५०; १०१;

१९१; ५, ७८; ७, ५५; १०, १४५;

बृदे २, ८२; ४, ६३; चाश्र ४२ :

१५; -षत्सु बौग्य ३, २, २९; भाग्य

३, ४ : ७; १२; ५ : ९; -षदः

बौश्रौ १७, २१ : ७; आमिग्य १,

२, १ : १६; बौग्य ३, १, २४; २,

४; भाग्य ३, ५ : १२†; कप्र ३, ९,

२; वाध २२, ९; बौध ३, १०,

११; गौध १९, १३; -षदम्

वाधूश्रौ ४, ७७ : ११; १०१ :

१३; †बौग्य ३, २, ३७^५; ५०^५;

जैग्य १, १६ : ६; अप ४४, ४, २;

बौध २, १०, ५५; -षदाम् शांग्य

६, ४, ५; आपध २, ५, १; हिग्य

२, १, ८१; -षदि आग्य १, १३,

१; -†षत्सुयः बौग्य ३, २, ३०;

४३; भाग्य ३, ४ : ५; ६^२; १२;

५ : ९.

बौपनिषद- पा ४, ३, ७३;

-दः जैग्य १, १६ : ०६; -दम् कौग्य

२, ७, १६; शांग्य २, ११, १२;

बृदे ८, ५६.

बौपनिषदक- पा ४, ३,

११८.

बौपनिषदिक- पाग ४, ४,

१२.

उपनिषत् ✓कृ > उपनिषत्-

कृत्य पा १, ४, ७९.

उपनिषत्-स्तुति^१ - -तिः बृदे ५,

८२.

उपनिषद्-अर्ह^१ - -र्हाः काग्य

१०, १; भाग्य १, ७, १; वाग्य ८,

१२.

उपनिषद्-आदान^१ - -नम्

वाधूश्रौ ४, ४१ : ५.

उपनिषद्-वर्ण- -र्णः या ३, १२.

उप-नि(स् >) प् ✓क्रम्, उपनि-

ष्कामति बौश्रौ ६, ३१ : १५;

७, ४ : १६; १२ : २१; ३८;

५१; भाश्रौ १, २०, २; माश्रौ

२, ५, १, ६; हिश्रौ १०, ४, ४;

उपनिष्कामतः बौश्रौ ७, १३ :

१४; १६ : ४; ४१; माश्रौ २, ४,

१, १०; हिश्रौ ७, ५, ३५; उपनि-

ष्कामन्ति शाश्रौ १८, २४, २६;

आपश्रौ १५, १३, ६; बौश्रौ ६,

३० : २३; ८, १९ : ११; ९,

१३ : २७; १७, ३७ : १३; भाश्रौ

११, १३, १०; हिश्रौ २४, ६, ३;

उपनिष्काम बौश्रौ २५, २० :

१०.

उपनिष्-कमण- -णम् बौश्रौ २७,

१२ : २०; बौग्य २, २, १; -णात्

a) °वृ इति पाठः ? यनि. शोषः (तु. बौश्रौ ९, ५ : ३१)। b) विप.। बस.। c) पाठः?। उप-
निमज्जम् इति संस्कृतः टि.। d) = रहस्य-, प्रन्थ-विशेष-। e) तु. पागम। f) °षत्-क- इति
P.W. प्रसू. ?। g) मलो. कस.। h) विप.। उस. उप. कर्तरि ञष् प्र.।

आमिष्ट १,६,३ : २६.
 उपनिष्क्रमण-प्रभृति- -ति पाठ
 ३,२,४.
 उपनिष्-क्रम्य बौध्रौ ५,७ : ११;
 ७, ३ : ११; १५ : २७; २३,
 १४ : १५; १६.
 उपनिष्-क्रम्य आश्रौ १०, ९, २;
 शाश्रौ; द्राश्रौ ९,४,२४^a.
 उपनिष्-क्रान्त- -न्तस्य बौध्रौ ७,
 १२ : २१; ३८; ५१; ८, ७ : २;
 २५, २० : १४.
 उपनिष्-क्रामण- -णम् आमिष्ट १,
 ६, ३ : २५; २, २, ३ : १.
 उपनिष्-क्रामत्- -मन् भाश्रौ ४,
 २२, ११; हिश्रौ १०, ५, २०.
 उप-नि(सु >): √सृप्, उपनिःसर्पति
 बौध्रौ ७, ७ : ३२; ८, २ : ११;
 १० : २१; हिश्रौ १, ५, २८.
 उपनिः-सृप्य बौध्रौ २७, ३ : १७;
 जैश्रौ ३ : ९.
 उप-नि-हन्, उपनिहन्ति काश्रौ ८,
 ४, ७; माश्रौ २, २, २, २४; उप-
 निघ्नन्ते आमिष्ट ३, ५, ६ : २;
 बौपि १, ४ : १९.
 उपनि-हित- उप-नि-धा द्र.
 उप-नी^b, उपनयते आश्रौ १, २०, ८;
 आमिष्ट १, १, ३ : ९; काश्रौ ४१,
 २४^c; माश्रौ १, २२, ५^c; हिश्रौ १,
 ५, ८; वाध १४, १७; आपध
 १, १, ११; हिध १, १, १९;
 उपनयति बौध्रौ २, १५ : १५;
 १६××; वाधुश्रौ; ऋउपनये आपमं
 २, ३, २४^c; आमिष्ट १, १, ३ :
 ११^c; काश्रौ ४१, १६^{d/e}; बौध्रौ

२, ५, २८^c; हिश्रौ १, ५, ८^c;
 उपनयामि कौश्र २, २, ७^f; शाश्रौ
 २, २, १२^f; भाश्रौ १, ७ : ११^f;
 वाश्रौ ५, १७^f; कौश्र ५५, १२;
 ऋउप...नयासि आपश्रौ ४, ७,
 २^g; भाश्रौ ४, १०, १-३; हिश्रौ
 ६, २, १७; ऋउप...नयस्व आपमं
 २, ३, २६; आमिष्ट १, १, ३ : ३;
 काश्रौ ४१, १०; हिश्रौ १, ५, २;
 जैश्रौ १, १२ : २४; कौश्र ५५, ९;
 उपनय कौश्र ५५, ११; उप...
 नय आपश्रौ ४, ७, २^f; उपनयत
 आश्रौ ३, ३, १; शाश्रौ ५, १७,
 १; उपनयेत शाश्रौ २, १, १^c; २५;
 आमिष्ट १, ४, १ : १४; अप ३७,
 १६, १; उपनयेत् आश्रौ २, ६,
 १४; आश्रौ; कौश्र २, १, २६^f;
 उपनयेयुः शाश्रौ २, १, १०; पाश्रौ
 २, ५, ४०; बौश्र ३, १३, ६;
 गोश्रौ २, १०, ५.
 उपनयीत^h कौश्र २, १, १^c; २५;
 आमिष्ट.
 उपनीयते शाश्रौ १५, १५, १४.
 उपनाययेत् विध ५४, २६.
 उप-नय- -यः हिध १, १, ६.
 उप-नयत्- -यन् बौध्रौ १, २, ५६;
 मीश्र ६, ८, ११.
 उप-नयन^h- -नम् वैश्रौ १३, ११;
 १६; आमिष्ट; -नात् आश्रौ १,
 १५, ८; बौश्र; -ने कौश्र १,
 १, ५; शाश्रौ १, ५, २; पाश्रौ १,
 ४, २; गोश्रौ १, ९, २४; ३, ३, २;
 जैश्रौ १, १४ : ४; -नेन कौश्र २,
 ७, २; शाश्रौ २, ११, २; माश्रौ १,

२३, २४; वाश्रौ ६, २; गोश्रौ ३
 १, ८; जैश्रौ १, १८ : ४.
 उपनयन-प्रभृति- -ति काश्रौ १,
 १; बौश्र २, ६, १९; माश्रौ १, १,
 १; वाश्रौ ६, १; वैश्र ६, ८ : १;
 आपध २, २१, ३; वैध २, १३,
 ७; हिध २, ५, १११.
 उपनयन-वत् वाश्रौ १४, १३;
 द्राश्रौ ३, २, १६.
 उपनयन-संस्कार- -रे वैश्र ६,
 ७ : २.
 उपनयना(न-अ)मि- -मिः
 आमिष्ट २, ७, ४ : १०; बौश्र ४,
 १०, २; -मिम् वैश्र ६, ११ : १;
 -मौ वैश्र ६, १२ : ४.
 उपनयना(न-अ)दि- -दिः गोश्रौ
 २, १०.
 उपनयना(न-अ)र्थ- -र्थम् वैश्र
 ६, ७ : १२.
 उपनयना(न-अ)वृत्- -वृता
 जैश्रौ १, २१ : ७.
 उपनयना(न-अ)हन्- -ह्नि शंध
 २८.
 उप-नायनⁱ- -नम् शंध ३३.
 औपनायनिक^j- -कः भाश्रौ ३,
 १ : १.
 उप-नीत,ता- -तः वैश्र १, १ : १३;
 कौश्र ५५, १८; वैध १, २, १;
 -तम् कौश्र १०, १९; -तस्य
 वैश्र ३, २१ : २; -ताम् बौश्रौ
 १७, ४४ : १०.
 उपनीत-मात्र- -त्रः बौश्र १, ७,
 २.
 उप-नीय काश्रौसं ३० : १; ३; वाश्रौ-

a) सपा. लाश्रौ ३, ८, १५ निष्क्रम्य इति पाठे. । b) पा १, ३, ३६ परामृष्टः द्र. । c) सपा. 'नये
 <>नयामि<>गृह्णामि इति पाठे. । d) सक्नु सपा. 'नये<>नयामि इति पाठे. । e) सपा. 'येत<>
 षीत इति पाठे. । f) सपा. 'नयेत्<>नेयः इति पाठे. । g) अदा. हिन्वाऽभावः उत्सं. (पा १, २, ४) ।
 h) = संस्कार-विशेष- । i) = उपनयन- । j) विप. । तस्येदमीयष् उक् प्र. ।

उप-नेतृ- -ता आपृ ११, ७; -तुः
बौश्री १७, ४४ : ११†.
उप-नेय- -यः शां २, १, २६†;
-याः वैय २, ३ : ९.
उप/नीक्ष, °नीक्ष्य उप/निक्ष् द्र.
उपनीति^०- -तिः बौय ३, १०, ६.
उपनीवि- (> औपनीविक-) पा
४, ३, ४०.
उप/नुद्, उपनुदति आपृश्री १८,
१७, १०; हिश्री १३, ६, १०?†;
कौस् ३५, २२.
उप-नैष- उप-नैष- टि. द्र.
उप-न्य(नि/अ)स् (क्षेपरो), उप-
न्यस्यति भाश्री १, ९, ८.
उपन्य(नि-अ)स्य शांश्री ४, ५, २;
भाश्री ८, २०, ५.
उपन्या(नि-अ)स- -सः माशि ८,
४; -सात् माशि ८, ४.
उप-न्या(नि-अ)/ह > उपन्या-
हृत- -तम् जैगृ १, १२ : ६०.
उपन्या-हृत्य गोगृ ३, ४, २; द्राय
१, ३, १.
उपन्युप्त-, °न्युप्य उप-नि/वप् द्र.
उप-पक्ष- -क्षम् बौश्री ६, ३ : २; ४;
१०, ४९ : १३; १५; -क्षौ
आपृश्री १०, ५, ७†; बौश्री १७,
४० : १०; भाश्री ८, ३, २४;
१०, ३, १६; वैश्री १२, ६ : ५;
हिश्री ७, १, ३३; आमिगृ १, ३,
२ : १८; भागृ २, १९ : ८;
हिगृ १, ९, १७.
उप/पत् > षउप-पतत्- -तन्तम्
आश्री ४, ७, ४.
उप-पतन- > °नीय- -यानि शंघ
४१४; -येन वाध २३, ३९.
उप-पात- -तः मीस् ६, ४, २४; -तात्

काश्री २५, ३, २६; ५, ३; ११, ६.
उपपात-सामर्थ्य- -ध्यात् काश्री
२५, ४, २५.
उप-पति- -तिः वाध १४, ११; गौघ
१५, १६; -तिम्, -तेः वाध
१४, ६.
उप/पद्, उपपद्यते आपृश्री २४,
१४, ३; बौश्री; या १, २; १३†;
१४; ७, २३; ८, २; ११, २३; याशि
१, ९२; पावा १, १, ६९; २,
४५; ५१; ४, २४; उपपद्यते
मीस् ५, ३, ४०; उपपद्यन्ते मीस्
४, ४, ३५; उपपद्येत आपृश्री
१०, १२, १२; भाश्री; या ११,
२३; उपपद्येरन् लाश्री १०, ८,
४; मीस् १, ४, २०.
उपपपाद् शांश्री १५, २४, १;
उपपपस्यते निस् १०, १३ : ११.
उपपाद्येत वौगृ ३, १३, १; २;
उपपाद्येयुः लाश्री १०, १, १.
उपपादयिषेत् बौश्री २०, १ :
७; या २, २.
उप-पत्ति- -त्तिः मीस् १०, १, ३०;
-त्तिम् बौध १, ५, ४७; -त्या
काश्री २, ७, २०; निस् ८, ६ :
५३; ५५.
उप-पद्यमान- -ने आगृ १, ८, १;
कौस् १३८, ९.
उप-पन्न- -न्नः बौश्री २०, १ : १४;
अप १, ४६, १; -न्नम् काश्री ७,
२, ४; लाश्री १०, २, १३; निस्
१०, २ : ३२; बौध २, १०, ५२;
-न्नाय जैश्री २ : १८; -न्नेषु
अप ५८†, २, १; विध ७३, १३.
उपपन्न-मन्त्रो(न्त्र-उ)पदेश-
-ज्ञात् काश्री १, ८, १७.

उप-पादन- -नम् बौश्री २०, १ : ३;
-ने नाशि १, ३, ५.
उपपादना(न-आ)दि- -दिभिः
नाशि १, ३, ७.
उप-पादित^d- (> णित्- पा) पाग
५, २, ८८.
उप-पाद्य- -द्यः बौश्री २०, १ : २.
उप-पद्^०- -द्म् पा २, २, १९; ३, १,
९२; पावा २, २, १९; ६, १,
१५४; -दस्य पावा ३, ४, १;
-दे पा १, ४, १०५; पावा ३,
१, १२५; ६, ३, ८५; -देन पा
१, ३, ७७.
उपपद्-विधि- -धौ पावा १, १, ७२;
४, १, १.
उपपद्-विभक्ति- -क्तिः पावा २, ३,
२२; -क्तेः पावा २, ३, १६; १९; २२
उपपद्-संज्ञा- -ज्ञा पावा ३, १, ९१;
-ज्ञायाम् पावा ३, १, ९२.
उपपद्-संज्ञा(ज्ञा-अ)र्थ- -र्थम्
पावा ३, ३, १२७.
उपपद्-संनियोगा(ग-अ)र्थ- -र्थम्
पावा ३, १, ९२.
उपपद्-समास- -सः पावा २, २, १९†.
उपपदा(द-अ)प्रयोग- -गे शुप्रा ६,
२३.
†उप-परा/मृश, उपऽउप...परा-
मृश वृदे ४, ३; या ३, २०;
उपऽउप (परामृश) वृदे १, ५२.
उप-परै(रा/इ), उप...परैमि शांश्री
८ ११, १४†.
उपपरै(रा-इ)स्य बौश्री २, १० : ३०;
४२.
उप-पर्यन्त- उप/पृच्छ् द्र.
उप-पर्या(रि-आ)/वृत्, उपपर्या-
वर्तते हिश्री १, १, ५५; २, ७,

a) पागे. पृ ६९५ f द्र. । b) = सर्प-विशेष-। व्यु. ? । c) ऋप इति पाठः ? यनि. शोधः (तु. सप्र. आपृश्री १८, १७, १०; C. च) । d) तु. पागम. । e) = संज्ञा-विशेष- ।

४०; ६, ४, २२; १०, २, ६४.
उप-पर्वन्- -वैणाम् शांशु ६, १, ११;
उप√पा(पाने)^a, उपपाययति आपथ्रौ
 २, ८, २; २०, १७, १; माथ्रौ २,
 ७, १६; माथ्रौ १, २, ५, २६;
 ८, ३, ९; हिथ्रौ १, ७, ५७; उप-
 पाययन्ति हिथ्रौ १४, ३, ५२;
 उपपाययेत् आपथ्रौ ९, १८, ११.
 २०, १७, २; हिथ्रौ १४, ३, ५३.
उप-पायन- -नम् माशु २, ९, ११;
 -नात् वाथ्रौ ३, ४, ४, ४.
उप-पाय्य आपथ्रौ २, ८, २; माथ्रौ
 २, ७, १६; माथ्रौ २, २, ४, ३१;
 ३, ५, ८; वाथ्रौ १, ३, ३, ५; हिथ्रौ
 १, ७, ५७; माशु २, ४, ३.
उप-पाय्यमान- -नः आपथ्रौ ९,
 १८, ११; २०, १७, २; हिथ्रौ
 १४, ३, ५३.
उप-पात- प्रथ्. उप√पत् द्र.
उप-पातक- -कम् गौध २१, ११;
 -कानि वाध १, २, ३; शंध ४१४;
 बौध २, १, ४३; विध ३७, ३४;
 मुधप ८६ : २; -केभ्यः बौध
 ३, ५, ५; -केषु गौध २०, १६३;
 -कैः बौध ४, २, १२.
उपपातक-युक्त- -क्ते विध ५, ३०.
उपपातकिन्- -किनः विध ३७,
 ३५; ४३, २६; -किनाम् विध
 ८, २५; ४४, ५.
उप-पाद्- पा ६, २, १९४.
उप-पादन- प्रथ्. उप√पद् द्र.
उप-पाप- -पानाम् वाध २५, १.
उप-पार्श्व- -श्वयोः बौशु २, ८, २८.
उप√पीड् > उप-पीडम् पा ३, ४,
 ४९.

उप पीडित- -तः विध ६, ४३.
उप√पृच्, ङच्, उप(उपपृच्छ) अत्र
 ९, ४^b.
 उपऽउप...पृच्यते बौथ्रौ ३, ९;
 ७; उप...उपपृच्यताम्^b द्राथ्रौ
 ७, ३, ४; लाथ्रौ ३, ३, ४; उप-
 (उपपृच्यताम्)^b द्राथ्रौ ७, ३, ४^c;
 लाथ्रौ ३, ३, ४^c; निसू १, २ : २५;
 ऋया १६, ५१.
उप-पर्वन्- -०न अत्र ९, ४^c; -नः
 या ६, १७; -नम्^c द्राथ्रौ ७,
 ३, ४; लाथ्रौ ३, ३, ४; निसू १,
 २ : २५.
उप-पृच्^d -पृक् या ६, १७^फ.
उप√पृष्ण, उप...पृष्णध्वम् वौथ्रौ
 १८, २९ : ७^फ.
उप-प्र√कृ > उप-प्रकीर्णं हिपि ७ :
 ११.
उप-प्र√गा, उपो(प-उ)...प्रागुः
 वौथ्रौ ४, ५ : ३, उप(प्रागुः)काथ्रौ
 ६, ३, १७; काठथ्रौ ५५; शुअ
 १, ३७८; उपो (Lप-उ]प्रागुः)
 आपथ्रौ ७, १२, ८; माथ्रौ ७, ९,
 ११; माथ्रौ १, ८, ३, ३; वाथ्रौ
 १, ६, ४, ४; वैथ्रौ १०, ९ : १६;
 हिथ्रौ ४, ३, ४.
उप-प्र√गृह्, उपप्रगृह्णति वौथ्रौ
 ७, १५ : १; ८, ४ : २१; १२ : ३४.
उप-प्रतिहार^e -रम् शांथ्रौ १७, १७,
 १२.
उप-प्रती (ति√इ), उप...प्रतीयात्
 निसू २, ४ : २८.
उप-प्र√या > उपप्र-यास्यत्- -स्यन्
 आपथ्रौ १९, १९, १; बौथ्रौ १३,
 २ : ५; ९ : १; हिथ्रौ २२, २, २४.

उप-प्र√युञ्ज्, उपप्रयुञ्जते निसू ९,
 ३ : १२; २८; उपप्रयुञ्जते
 वाधुथ्रौ ३, ७८ : १; ८३ : ३.
उप-प्र√वद्, उपप्रवद् या ९, ७^f.
उप-प्र√वृत्, उपप्रवर्तयति आपथ्रौ
 १३, १५, ९; बौथ्रौ; उपप्रवर्तय
 आपथ्रौ १३, १४, ११; १४, १, ७;
 उपप्रवर्तयतात् वौथ्रौ ८, १४ :
 २८^३; उपप्रवर्तयेत् आपथ्रौ १३,
 १५, १०.
उप-प्रवर्तन- -नम् हिथ्रौ ९, ४, ३४.
उप-प्रे(प्र√इ), उपप्रेतु या ६, २२;
 उपप्रेत आपथ्रौ ६, ८, ११;
 वौथ्रौ ३, ६ : १४.
उप-प्र-यत्- -यन्तः आथ्रौ ४, १३,
 ७; ७, १०, ३; शांथ्रौ.
उप-प्रे(प्र√इ) प् (गती), उपप्रेष्य
 आथ्रौ ३, २, १०; शांथ्रौ ५, १६,
 ९; काथ्रौ ६, ५, ९; आपथ्रौ ७,
 १५, ७; बौथ्रौ ४, ६ : २८;
 काठथ्रौ ५७; माथ्रौ ७, १२, ९;
 माथ्रौ १, ८, ३, २५; ५, २, ८, २२;
 वाथ्रौ १, ६, ४, ३०; वैथ्रौ १०,
 १२ : ८; हिथ्रौ ४, ३, ४५.
उप-प्रेः य^g > ष्य-परिपशब्दे-संज्ञ-
 पया(य-अ) न्वगन्-प्रोक्षण्यु-
 (एी-उ)ष्मुका(क-अ)सि-शामित्रा
 (त्र-अ)न्तर्धान-प्रच्छेद-स्तोक-
 संप्रेष-शामित्रनुशासन-संवाद
 -वनस्पति-स्विष्टकृद्-इडा- -डाः
 काथ्रौ ८, ८, २९^६.
उपप्रे(प्र-इ)ः यत्- -ष्यन् आपथ्रौ
 २०, १५, १३^३फ.
उप-प्रेष^h -षः बुदे १, ३८; ५६;
 -षम् शांथ्रौ ५, १६, ९; -क्षे

a) उपसृष्टस्य धा. क्वचित् क्लेशने वृत्तिः । b) पामे. वैप १, ९३२ k द्र. । c) पामे. वैप १,
 ९३२ l द्र. । d) वैप १ द्र. । e) अस. वा. क्वि. । f) क्वि. अनुकृतिमात्रं द्र. ।
 g) तिङन्तनाम्नोः द्वस. । h) = मन्त्र-विशेष- । गस. ।
 वैप ४ प्र ८८

शांश्री ५, १६, १०.
 उपस्रैषा(ष-आ)श्रावण- -णे बौश्री
 २०, २८ : १२; २४, ३६ : ३.
 उप√प्लु, उपप्लवति कौस् १००, १.
 उपप्लावयति हिश्री १४, १, ३४.
 उप-प्लव^१- -वे द्राश्री २, १, २८;
 लाश्री १, ५, २२^२; -वौ वाश्री
 ३, २, ३, ३२; द्राश्री २, १, १०;
 लाश्री १, ५, ७^३.
 उप-प्लाव्य हिश्री १४, १, ३४.
 उप√बध्, न्ध > उप-बद्ध- -द्धान्
 शौच २, २७^१.
 उप-बन्ध^१- -न्धः या १, ८; तैप्रा १,
 ५९; -न्धम् या १, ७; ६, १६.
 उप√बलिह्, उपबलिहामहे लाश्री
 ९, १०, ११^१.
 उप√बाध् > उप-बाध- -धेऽधे
 भाग २, ३१ : १५, १६.
 उपबाहु^१- (> औपबाहवि- पा.)
 पाग ४, १, १६.
 उपबिन्दु^१- पाग ४, १, १६^१.
 औपबिन्दवि- पा ४, १, १६; पाग
 ४, २, १३८^२.
 औपबिन्द्वीय- पा ४, २, १३८.
 १उप-बिल^१- -लम् आपश्री १, १६,
 ५; १५, ३, ३; भाश्री १, १८, ३;
 ११, २, २६; माश्री १, २, १, ११.
 २उप-बिल^१- -लान् माश्री-२, ३, ४,
 २३; ४, १, ५.
 उप√बृह् (बृहौ), उपबर्हस्व आपमं
 १, ११, ७^१.
 उपबर्हृहि या ४, २०^१.

उप-बर्हण^१- -णम् आपश्री ५, २०,
 ७; १३, ६, १; बौश्री १७, ३९ :
 १; २७; भाश्री ५, १२, १६;
 माश्री; -णं काग ४५, ७; माग
 २, १, १०.
 उपब्द^१- -द्वैः अत्रा ३, ४, १^१.
 †उपब्दि^१- -दिः शांश्री १४, ५२, ५;
 अप ४८, १०२; निघ १, ११.
 उपब्दि-मत्- -मत् शांश्री २, ९,
 १४^१; तैप्रा २३, ९; -मतः बौश्री
 ७, ७ : ९; १४, ५ : ३; ५.
 †उप√ब्रु, उपब्रूते शांश्री १२, २४,
 २; भाश्री ४, ७, ३; आपमं;
 उपब्रुवे आश्री २, १०, २१;
 आपश्री ४, ५, ५^१; हिश्री ६, २,
 ७^१; उपब्रवामहै बौग २, २, ५;
 माग २, १५, ६.
 उप√भज् > उप-भज्य हिपि ८ : ५;
 गौपि १, ४, ७.
 उप-भाव^१- -वः पात्रा ५, ३, ३१.
 उप√भुज्, उपभुजते बृदे ८, ११५^२;
 उपभुज्यताम् आमिग ३, ३, २ :
 २६; ११, २ : १८; गौपि २, ४,
 २२.
 उप-भुक्त- -क्तः अप २०, ७, ११;
 -क्तम् आग ४, ७, २७.
 उप-भुज्य काठश्री ३; १२.
 †उप√भू, उप...भुवः या ४, २५^१;
 उप(भुवः) ऋप्रा ८, १२.
 उप...बभूयात्^१ वाग १६, १;
 उप...बभूयाः^१ आपमं १, ११,
 २; काग ३०, ३; माग १, १४, १६.

उप√भूय्, उपभूयतम् आश्री ६, ५,
 २४^१.
 उप√भृ=ह् > उप-भृत्^१- .पावाग ३,
 ३, १०८^१; -भृत् काश्री १, ३, ३६;
 आपश्री १, १५, १०; काठश्री ७;
 बौश्री; -णंभृत् आपश्री २, १३,
 २; ४, ७, २; बौश्री; -भृतः काश्री
 ३, २, २१××; आपश्री; -भृत्म्
 शांश्री ४, ९, ५; १४, १९; काश्री;
 -भृता आपश्री ४, ७, २^१; भाश्री
 ४, १०, २^१; माश्री १, ७, २, ११;
 वैश्री ६, २ : ६; हिश्री २, १, १२;
 ६, २, १७; वैग ५, ४ : २०; -भृति
 काश्री १, १०, ९××; आपश्री;
 -भृतौ वाश्री १, ६, २, ११;
 वैश्री ८, ४ : २; हिश्री ४, २, २७;
 ५, १, १२.
 औपभृत्^१- -तम् काश्री ३,
 ५, ५; आपश्री ३, ५, १; ८, ८,
 १०; १६, १७; १०, ३१, १४;
 ११, ३, १२; बौश्री १, १७ :
 २५××; भाश्री; -तस्य आपश्री
 २, १७, ६; बौश्री १, १६ : ३; माश्री
 १, ३, २, ३; वैश्री ९, ७ : २;
 हिश्री २, २, ३१; -तान् भाश्री
 २, १६, ९; -तानाम् भाश्री ८,
 २, १०; ११; ७, २; ३; -तानि
 काश्री ६, ७, ७; आपश्री ७, २५,
 १७; वैश्री १०, २० : २; -ते
 बौश्री २०, २६ : २९.
 औपभृता (त-आ)ज्य-
 -ज्यम् वैश्री ६, ७ : ५.

a) = नाप. [अग्नि-पक्षयोः] पूर्व-प्रदेश- । b) ँलये इति ँल्यौ इति च पाठो ? यनि. यथायथं शोधः
 [तु. चौसं. द्राश्री. च] । c) गस. उप. कर्मणि प्र. । d) पामे. वैप १, ९४० k द्र. । e) व्यप. । व्यु. ? ।
 f) °पनि° इति [पक्षे] भाण्डा. । g) तु. पागम. । ऐक- , बिन्दवि- इति भाण्डा., (एकविन्दु->) ऐकविन्दवि- इति
 पासि. । h) अस. वा. क्वि. । i) विप. (ग्रह-). प्रास. वा बस. वा । j) पामे. वैप १, ९२९ g द्र. ।
 k) वैप १ द्र. । l) सप्र. आपश्री ६, ११, ४ अशब्दं कुर्वन् इति पामे । m) पामे. वैप १, ९५१ b द्र. ।
 n) पू. < ऊर्ध्व- । o) परस्परं पामे. । p) तु. पागम. । q) विप. । तत्रभावायर्थेषु अण् प्र. ।

<p>औपभृताज्य-शेष- -षम् वैधौ ७, ४ : ५. औपभृता(त-आ)सादन- -नम् काश्रौ ५, ४, २६. उपभृद्-धर्म- -मैः वाश्रौ १, ६, २, १२. उपभृद्-ध्रुव- -वे वाश्रौ १, ७, ४, ३४. उपभृद्-वत् आपश्रौ ७, ८, ७; ९, ५. उपभृन्-मन्त्र- -न्त्रे काठश्रौ ५३. उप-भृत्य वैश्रौ ७, ८ : ८; १०, २१ : १; हिश्रौ २, ५, २. उपभौवरी^a- -र्यः चाश्र ३९ : ९. १उपम, मा^b- पावाग ५, १, १२४; -मम् ऋश्र २, ८, ५३१; -मस्य अप्रा ३, ४, ११; -मा आश्रौ ३, २, २०१; सु २२, २; ऋप्रा २, ६८१; -माः आश्रौ ४, ६, ३१; शांश्रौ ५, ९, ५१; निघ ३, १३१; या ३, ५; १३; -मे निघ २, १६१. औपमिक^c- -कः या ३, ४; -कम् या ४, ७; ७, १२; १३; १७. औपम्य- पावा ५, १, १२४; -म्यात् वृदे १, ३०; -म्ये पा १, ४, ७९; ४, १, ६९. औपम्य-कारण- -णात् वृदे २, ९०. उपम-श्रवस्^d- -वसम् ऋश्र २, १०,</p>	<p>३३; वृदे ७, ३६. उपमश्रवस्-तम^e- -मम् वागृ ५, २२१. उपमा-रहित- -ताः आमिगृ २, ४, १२ : ७. १उपमा(मा-अ)र्थ- -र्थे वृदे २, ९२; साश्र १, १७; या १ ४^३; ३, १६; ४, ११; ५, २२; २८; ६, ८; ७, २०; ८, १९; ९, ६; ११, ४७; १२, ८; १९; २९; पा ८, २, १०१; -थेन या २, १६. २उपमा(मा-अ)र्थ^f- -र्थिः वृदे २, ९१; -र्यान् वृदे ४, ९७. उपमो(मा-उ)त्त(म>)मा^g- -मया या १, १९. १उपमः^h आश्रौ २, ५, १७. उप√मज्ज, उपमज्जति बौश्रौ १५, ३७ : २. उपमङ्क्ष्ये शांश्रौ १६, १६, ३१^h. उप-मज्जकⁱ- -क्रेनⁱ हिश्रौ १८, ४, २३^k. उप-मज्जन- -ने आपश्रौ २३, १२, ५^k. उप-मज्जित- -तस्य वाधूश्रौ ३, ९९ : ४. उप-मज्ज्य आपध २, १५, ७. उप√मथ्, न्य्, उपमन्यति आपश्रौ ८, १४, १४; काठश्रौ ४०; बौश्रौ ५, ११ : २१; २२; १८, ९ : २; ९; १६; २३; भाश्रौ ८, १६, १०; वैश्रौ ९, ६ : ४; हिश्रौ ५,</p>	<p>४, ३६. उप-मथित- -तः हिपि १५ : १६. उप-मथ्य बौश्रौ १८, १८ : १०; कौस्. उप-मन्यन- -नम् कौस् ४०, ८. उपमन्यनी^l- -नीभ्याम् कौस् २७, १०; ४३, २०; ८२, २५. उप-मध्यमा^m- -मया आपश्रौ ३, १, २; १९, ७; भाश्रौ ३, २, ९; १७, ८; माश्रौ १, १, ३, १४; ३, ३, २; ५, २, १५, १८; वाश्रौ १, १, ५, १७; ३, ५, १; हिश्रौ २, ३, १; ८, २५; आपगृ ४, ५; भागृ ३, १७ : ३; वागृ ११, १६; हिगृ १, १३, ८; -मायाम् माश्रौ २, १, ४, १. उप√मन्त्रि (<मन्त्र-), †उप- मन्त्रये शांश्रौ १५, २५, १; उपामन्त्रयन्त तैप्रा ४, ४२१. *उपमन्त्रयां √कृ, उपमन्त्रयांचके बौश्रौ १८, ४६ : १७. उप-मन्त्रित- -ताः वाधूश्रौ ४, ४७ : ११. उप-मन्त्रिन्ⁿ- -न्त्रिणः या ९, २१. उपमन्यु^o- पाग ४, १, १०४; -न्यवः^o बौश्रौ ४७ : १; ६; -न्युः ऋश्र २, ९, ९७; साश्र २, १५३; -न्युनाम्^o आश्रौ १२, १५, २; हिश्रौ २१, ३, १४. औपमन्यव- पा ४, १, १०४; -वः बौश्रौ ३, १४ : ३२; १३, १ : १२; २०, १ : २४; ३३××;</p>
---	--	---

a) = ऋच्-विशेष-। व्यु. ?। b) वैप १ निर्दिष्टयोरिह संनिवेशः द्र.। c) तात्रभविकृष् ठक् प्र.।

d) वैप १ द्र.। e) विप.। बस.। f) विप.। वृष.। g) स्वरूपम् ?। उपवः इति आन.। h) पाशे. वैप २, ३खं. उपमंक्ष्यति माश्र १३, ७, १, १५ टि. द्र.। i) नाप. (सरस्वती-विनशन- [तु. तां २५, १०, १])। गस. उप. आधिकरणे षबुल् प्र.। j) पाठः ? °के इति शोधः (तु. आपश्रौ २३, १२, ५)। k) सप्र. °ज्जकेन <> °ज्जने इति पाशे.। l) = मन्थन-साधन-। m) = अनामिका-। प्रास.। n) = ऋषि-विशेष-। व्यु. ?। o) बहु-
<औपमन्यव-।

या १,१; २, २; ६; ११; ३, ८;
११; १८; १९; ५, ७; ६, ३०; १०,
८; -वम् जैगृ १, १४ : ९;
-वस्य वीश्रौ २०, ४ : २१××;
-वाः चःयू २ : ४^१.

औपमन्यवी- > ँवी-

पुत्र-त्रः वीश्रौ २०, ३ :
१६××; -त्रस्य वीश्रौ २०, १ :
१७; २५ : २८; २७; ३; २१, १४ :
२२; १५ : १; २६ : १२; २३,
१९ : २९.

औपमन्यवीय- येन वीश्रौ
२६, २१ : २.

उपमन्यु-पराशर-कुण्डिन- नेभ्यः
आश्रौ १२, १५, १; हिश्रौ २१,
३, १४.

उपमर्कट^b- > औपमर्कटायन- -नाः
वीश्रौ २१ : १.

उप ✓मा (माने), उपमास्व ऋप्रा ८,
४५^१.

उपमिमीते या १, ४; ३, १३;
१४; ५, २६; †उपमिमीहि
या १४, ३६^१.

२उप-मा^c- -मा ऋप्रा १७, १९.

उप-मान- -नम् पा ६, १, २०४; २,
८०; १२७; पावा ३, ३, १५;
-नस्य या ७, ३१; पावा ६, १,
२००; -नात् पा ३, १, १०, ५, ४,
९७; १३७; पावा ३, १, ७; ४, १,
५५; ५, २, २९; -नानि पा २,
१, ५५; -ने पा ३, २, ७९; ४,
४५; ६, २, ७२.

उपमान-समास- -से पावा २,
१, ५५.

१उप-मित- -तम् पा २, १, ५६.

१उपमा- उपम-द्र.

उप-माति^d- -तयः आश्रौ ७, २, १७^१.

उपमाति-कृत्^d- -कृत् शाश्रौ ८,
१७, १^१.

उप ✓मान्, उप . मीमांसित वाधूश्रौ
३, १९ : १५; ४, २८^१ : ५; ३३ :
१०; ६९ : ४; ७६ : ६; ८० : ४.

उपमानय^e या १४, ३६.

उप ✓मि (प्रक्षेपणे), उपमिनुते आपश्रौ
१४, ३३, ५; हिश्रौ १५, ८, ३९;
उपमिनुतः वैश्रौ २१, १७ : ११.

†उप-मित^d- -मितः भागृ १, २७ :
११; -मिताम् कौम् ६६, २२;
२९; अत्र ९, ३; अर्प ४ : ३३.

२उप-मित- -ते वैताश्रौ १०, २२.

उप ✓मीव् (गतौ)^f, उपमीवति वीश्रौ
८, १४; ४१; वैश्रौ १६, १८; १५;
उपमीवामि वीश्रौ १५, ५ : २७.

उप-मीवन्- -वतः वीश्रौ १५, ५ :
२८.

उप-मुख^g- -खम् द्राश्रौ ११, २, ७;
लाश्रौ ४, २, ६; -खेन शाश्रौ
१७, ३, १३.

उप ✓मुच्, ऊच्, उपमुञ्चते काश्रौ
१५, ६, २४; आपश्रौ १७, १३,
२; वीश्रौ १२, १२ : १४; १७,
४२ : ८; १८, १६ : १२; १९,
२ : २; हिश्रौ १२, ४, ५; आमिगृ
१, ३, ५ : १२; भागृ २, २२ :
१०; उपमुञ्चते वीश्रौ १०, ३७ :
२; उपमुञ्चतः वैश्रौ १९, ६ :
६७; उपमुञ्चन्ते वीश्रौ १०, २३ :
१४; ३७ : ९; ३९ : ३; ४१ : ३;

४४ : ३; वैश्रौ १८, १४ : ३२.

उप-मुच्च आपश्रौ १८, १७, १२;
भागृ २, २२ : ११; कौम् १८,
५; १०; अशां १५, ६.

उप-मोचन- -ने वीश्रौ २२, ५ : ६.

उप-मूल^d- -लम् काश्रौ ४, १, ११;
आपश्रौ १, ७, ४; माश्रौ १, ७,
६, २.

उपमूल-लून- -नम् आपश्रौ ८,
१३, १२; काठश्रौ ४१; वाश्रौ
१, ७, ४, ८; वैश्रौ ३, ४ : १६;
हिश्रौ ५, ४, ११; कौम् १, २२;
-नाः गोश्रु १, ५, १८; -नान्
जैगृ २, १ : ६.

उप ✓मु, उपमारयति आपश्रौ ८, ८,
१२; १३, २०, १०; काठश्रौ १०९;
माश्रौ २, २, ५, १४; ३, २, १८;
५, ४, २९; वैश्रौ १६, २६ : ४;
हिश्रौ ९, ५, ७.

उप-मारयत्- -यन् आपश्रौ ११,
२०, ९.

उप ✓मुञ्, उपमार्ष्टि शाश्रौ २, ९,
१०; काश्रौ ९, ४, ३४.

उप-मार्जन- -नम् शाश्रौ २, ९, १२.

उप-मृज्य काश्रौ ४, १४, २०; २६,
५, १५. काश्रौमं.

उप-मृष्ट- -ष्टम् कौम् ४६, ४८.

उप ✓यच्छ, यम् (यमने, ग्रहणे)^h,
उपयच्छते शाश्रौ १६, १७, ९;
हिश्रौ ४, १, २१; हिगृ १, २४,
४^h; उपयच्छति आपश्रौ १५,
१०, ६; वीश्रौ; उपयच्छते माश्रौ
२, ४, १, ८; उपयच्छतः वीश्रौ ७,
१३ : १३; हिश्रौ ८, ७, ८;

a) ँवः इति पाठः ? यनि. शोधः । b) = ऋषि-विशेष- । व्यु. ? । c) = छन्दो-विशेष- । d) वैप १
द्र. । e) पाठः ? ञामय इति शोधः (तु. R. N.) । ञाय इति मूको. । f) उपसृष्टस्य धा. उपाजने श्रुतिः ।
g) अस. वा. क्वि. । h) वैतु. रुद्रदत्तः अस. इति । i) पा १, ३, ५६ परामृष्टः द्र. । j) उपगच्छति इति Böht
LZDMG ५२, ८५ ।

उपयच्छन्ते कौस् ८६, १६; उप-
यच्छन्ति माश्रौ ५, १, ९, ९;
वाश्रौ ३, ४, ३, ८; उप...
यच्छन्ति बौश्रौ ११, ५ : ५^२;
७; १५, ३१ : ३; ५; ६; ऋउप-
यच्छामि काश्रौ २६, ५, १५;
आपश्रौ; ऋउपयच्छ काश्रौ १८,
३, १६; उपयच्छेत बौश्रौ २४,
३२ : ४; ६; आगृ; या ३, ५;
उपयच्छेत् वैश्रौ २०, २३ :
८; आगृ १, ५, २; कागृ १४, ८;
बौषि ३, १, ५^३; उपयच्छीत्
बौश्रौ २०, १० : २३; २५,
११ : १२; २४; १४ : १६; १५ :
१४.

उपयमेत् मागृ १, ७, १०; वागृ
१०, ४.

उप-यत्- -तम् आपश्रौ ५, १२, ६;
-ते हिश्रौ ३, ४, २०; ४, ३, ३;
७, ८, १९.

उप-यत्य बौश्रौ १, १२ : ३९××;
भाश्रौ १, २५, ४.

उप-यन्तृ- -न्ता कागृ २५, २१;
मागृ १, १०, १२ऋ; वागृ १४,
१३.

उप-यम- पा ३, ३, ६३; -मे कागृ
१४, १०; मागृ १, ७, ५.

उप-यमन^b- -नम् आपश्रौ १५, ९,
१०××; बौश्रौ; -नात् बौश्रौ ९,
१० : २४××; वैश्रौ; -नान् पागृ
१, १, ४; -ने आपश्रौ १५, ११,
२××; बौश्रौ; पा १, २, १६;
४, ७७; -नेन आपश्रौ १५,
१०, ६; ११, ९; बौश्रौ.

उपयमनी- -नी आपश्रौ १५,
५, १०; भाश्रौ ११, ५, १२;
वैश्रौ १३, ७ : ११; हिश्रौ २४,
२, ५; -नीः काश्रौ ५, ४, १८;
१८, ३, १६ऋ; आपश्रौ; -नीमिः
आपश्रौ ७, ६, ६; वैश्रौ १४, १५
४; -नीम् काश्रौ २६, २, १०;
६, २०; -नीषु काश्रौ ८, ६, ३१;
बौश्रौ ६, २४ : ८; १०, ५१ : ६;
२५, ११ : ३; -न्या काश्रौ २६, ५,
१५; ६, १; -न्याम् काश्रौ २६,
६, १६; ७, २४; काश्रौसं ३५ :
२१^c.

उपयमनी-स्थ- -स्थम्
काश्रौसं ३५ : ६.

उपयमनी-हार^d- -रः
बौश्रौ २५, २ : ४.

उपयमन-द्रव्य- -व्यस्य वैश्रौ
१३, १३ : ७.

उपयमन-प्रतिषेध- -धः या ३,
५.

उपयमन-प्रभृति- -ति पागृ १,
९, १.

उप-यम्य काश्रौ ४, ९, ८; ५, ४,
२××; आपश्रौ.

उप-याम^e- पाग ५, २, १३६; -मः
काश्रौ १२, ५, १७; आपश्रौ १२,
१०, ७; माश्रौ ४, २, २; आपमं
१, १०, ७; ऋअप ३७, १४, १^२;
२; -मम् बौश्रौ ११, ३ : १४;
माश्रौ; -माः हिश्रौ ८, २, ४०;
-मान् आपश्रौ १८, १, १७^f;
बौश्रौ ११, १ : ७; माश्रौ ५, २,
४, ११; २५; वाश्रौ ३, १, १, १४;

-मानि^g हिश्रौ १३, १, १६^f;
-माय आपश्रौ १७, २, ६ऋ; -मे
माश्रौ ४, ३, १८; ३०; ३२; ३३;
५, ३; ७; -मेन आश्रौ २४, ३,
१५; बौश्रौ ११, ३ : १८; अप
३७, १५, १; -मेभ्यः वाश्रौ ३, १,
१, ४; -मेषु माश्रौ ५, २, ४, २१;
-मैः आपश्रौ १८, २, ५; हिश्रौ
१३, १, १८.

ऋउपयाम-गृहीत- -तः काश्रौ
९, ६, १××; आपश्रौ.

उपयाम-योनि^h- -नी काश्रौ
१९, २, १५.

उपयाम(म-ऋ)र्च्ⁱ- -मर्चा वैश्रौ
१५, १६ : १०.

उपयाम-वत्- पा ५, २, १३६.

उपयाम-सादन- -नम् माश्रौ ५,
२, ४, २०.

उपयाम्ना(म-ऋ)न्त^j- -न्तैः वैश्रौ
१५, १० : ६.

उपयामिन्- पा ५, २, १३६.

उप ✓यज्, उपयजति काश्रौ ६, ९,
१०; आपश्रौ ७, २६, ९; १४, ७,
११; बौश्रौ; उपयज भाश्रौ ८,
३, १०; हिश्रौ ४, ५, ३७; उप-
यजेत् बौश्रौ २०, ३० : १८; १९;
२२, १५ : १६; २३, १३ : ३५;
उपयजेरन् पागृ २, १७, १८.

उप-यज्^k- पा ३, २, ७३; -यजः
आपश्रौ १४, ७, ११; काठश्रौ;
-यड्भ्यः काश्रौ ६, ७, ८;
आपश्रौ.

औपयज^l- -जः बौश्रौ २४,
३७ : ७; -जान् काश्रौ ६, ९,

a) उपयच्छेत इति R. । b) भाप., नाप. (पात्र-विशेष-, कुश-विशेष-) । c) *यन्याम् इति पाठः ।

बनि. शोधः । d) नाप. । उस. उप. अणन्तम् । e) वैप १ द्र. । f) सप्र. *मान् <> *मानि इति पाठे. ।

g) अर्षर्चादिषु द्र. । h) [=प्रह-प्रहण-, प्रहाऽऽसादन-] मन्त्र-विशेष- । द्रस. । i) मलो. कस. । j) विप. । बस. ।

k) विप. । तस्येदमीयः ऋण प्र. ।

७०; आप्रथौ ७, २६, ८, ९; १३, १६, १२०; १४, २, १०; १९, ४, ५; २१, २४, १२; बौथौ ४, १० : २; ४, ८, १६ : १०; ३×४; वाथौ १, ६, ७, २१०; -जेषु बौथौ २०, ३० : १७; २१, २४ : ५; -जैः आप्रथौ ४, १२, ३. भौपयजिक^b - के बौथौ ४, ११ : ८.

उप-यज्य^c आप्रथौ ७, २८, ४.

उप-यत् - ँ०ः काथौ ६, ९, ७; आप्रथौ; -ष्टा बौथौ ४, १० : ५×४; वैथौ १०, २१ : ७.

उप-याज- जाः बौथौ २४, ३७ : १२.

उपे(प-इ)ज्य हिथौ ४, ५, ४२.

उप/यत्, उप...यतते वाधूथौ ३, ६९ : १५.

उप-यत्- उपे(प/इ) द्र.

उप-यत-, यथ्य उप/यच्छ द्र.

उपयथा वाथौ ३, २, २, २४.

उप-यन्तु-, यम- प्रभृ. उप/यच्छ द्र.

उप/या, उपयाति गोथ ३, ४, ३२; कौसू १७, २६; बौध २, ३, ६२; उपयान्ति अप्राय ३, ९; अप ५१, ३, ३; ४, २; ४; ५; विध ४४, ४५; ँउपयामि आप्रथौ १४, १७, १; हिथौ १५, ५, १; आमिथ २, ३, ५ : १७; उपयाहि आप्रथौ ८, १०, १; बौथौ २८, २ : ४४; बौथ १, ३, ३; ँया ४, ५, ५, १५; ँउप(याहि) आप्रथौ ७, १२, १५; ८, ८, २; शाथौ १०, ८, ९; ११, ९, ३; साअ १, १५०; १५१;

उनिस् ४ : १८; उप...यातम् अप्राय ६, ९०; ँउपयात आप्रथौ ५, ५, १४; शाथौ ८, २, ३; उप- (यात) आप्रथौ ८, ८, ८; ऋअ २, ४, ३५; ३७; उप...भयुः शाथौ ८, २०, १०; उपयायात् आग २, ६, ११.

ँउपो[प+उ](अयासिषुः) क्षुस् १, १ : २; २, ४ : ६; साअ १, ४८७; २, ६८५.

उप-यात- पाग ४, ४, १९^d; -ताय गोथ ३, ४, ३३.

भौपयातिक- पा ४, ४, १९.

उपयात-चन्द्रसूर्य^e - र्यः अप ५१, ५, ४.

उप-याय काथ २७, ३.

उप-याम- प्रभृ. उप/यच्छ द्र.

उप/युज्, उपयुङ्क्ते आप्रथ १, ५, ७; हिथ १, २, ७; उपयुञ्जीत बौथ ३, ३, १९; वाध; उप- युञ्ज्यात् विध ३, ८८.

उपयुज्यते कप्र २, ८, ६; १०, १०.

उपयोजयन्ति बौध २, १, ५०;

उपयोजयीत माथ १, ३, ६;

उपयोजयेत् अप ३, १, ४; आप्रथ.

उप-युक्त- -क्तस्य अप ३, १, ७; -क्ताः द्राथौ २, २, ४; लाथौ १, ६, ३; -क्तानाम् भाथौ ९, १६, ८; -क्तानि आप्रथौ ३, १, १९; अप ३, १, ४; -क्तेषु वैथ ३, २, ४.

उप-युञ्जान- नः माथौ ४, ८, २;

आमिथ १, २, १ : २४; २, ४, ४ :

७; अप ३१, ७, २; वाध २७,

१५; बौध ३, ७, १०; गौध २३,

२६.

उप-योग- -गः अप ३, १, ७; मीस् १०, २, ४६; -गम् हिथौ १४, ३, ५; कौस् २, २५; -गे भाग ३, १२ : ४; आप्रथ २, ३, १३; हिथ २, १, ४४; पा १, ४, २९.

उपयोग-निमित्त- -त्तम् पावा १, ४, ५१.

उपयोग-प्रभृति- -तीनि हिथौ १०, २, ६९.

उपयोग-वचना(न-आ)नर्थक्य- -क्यम् पावा १, ४, २९.

उपयोग-व्रत- -तम् हिथौ १०, ७, १.

उपयोगिन- -गिनः शैशि २४४.

उपर, रा^f - रः अप ४८, १० १०; निघ १, १०; या २, २१^g; -रम् आप्रथौ ७, ३, १×४; बौथौ; -रस्य आप्रथौ १४, २९, ३^h; हिथौ १५ ७, १६^h; या ३, ५^h; -राः अप ४८, ९९; निघ १०, ६; या २, २२; -राणि आप्रथौ १४, ६, ११; हिथौ ९, ८, २८; -रात् आप्रथौ ७, १०, ३; १९, १६, १५; वाधूथौ ४, ६३ : ५; वैथौ १४, १० : ७; -रे आप्रथौ १२, ७, १०×४; वैथौ; -रेण बौथौ ४, ४ : २८; वाधूथौ ४, ६३ : ४; वैथौ १०, २ : ६; हिथौ ४, १, २८; जैथौ ६ : ६; -रेषु बौथौ १७, १२ : ६.

उपर-मात्र- -त्रम् हिथौ ४, २, ३९.

उपर-वर्जम् काथौ ६, १, २६.

उपर-संमित, ता- -तम् काथौ ६, २, ९; बौथौ; -ताम् आप्रथौ १४,

a) 'जाङ्गा' इति पाठः? यनि. च अङ्गाराम् इति च शोधः । b) विप. । तस्येदमीयष् ठक् प्र. । c)

वैप १ द्र. । d) तु. [पक्षे] पागम. । e) विप. । बस. । f) पा १, ३, ६४ परामृष्टः द्र. । g) वैप १, १३७ k द्र. । h) पाप्ते. वैप १ परि. उपरः शौ ६, ४९, २ टि. द्र. ।

६,१०; बौश्री १७,१२ : ५,२६, २३ : ८; हिश्री ९, ८, १६;
-नायाम् बौश्री २४, ३५ : ४.
उपरि(र-ए)कदेश- -शे वैश्री १५, ११ : ७.
उप√रञ्ज्, उपरज्यते रूप ५७,१-४, ३; उपरज्यति रूप ५३,५,४.
उप-रक्त- -क्तः वैश्री २०, २४ : १; रूप ५३,३,२.
उप-राग- -गे वैश्री २१,३ : ३.
उप√रम्^a, उपरमति शांश्री १८,१९, १०; बौश्री; उपरमन्ते या २, २१; उपरमन्ति शांश्री १७, १७,७; बौश्री; उपरम बौश्री ७, १४ : १७; †उप...रम शांश्री १७,११,३; बौश्री ७,१६ : ३५; २० : २; ८, ८ : २५; उप...रमध्वम् या २, २५; उपरमेत् आश्री ४, १०, ३; ५, १, १३; शांश्री; उपरमेयुः द्राश्री ३,४,१०.
उपरमयति या २,१८.
उप-रंस्यत्- -स्यते तैप्रा १६,२२; †.
उप-रत,ता- -ताः या २,२१; -ते शांश्री १२, १३, ३; वैश्री १५, २७ : २१; १८, २ : ७; कौश्रि; -तेषु आश्री ४,६,७.
उपरत-शोणि(त>)ता^b- -ता गोग् २,५,८.
उप-रम^c- -मम् कौश्रि ३,९,१; शांश्री ४,७,१; -मे वैध २,१२,१.
उप-रम्य कौश्रि ३,८,४; शांश्री ४,६, ९; ८,२०.
उप-रव- उप√रुद्र.

उप-राज^d- (> औपराजिक, का, की- पा.) पाग ४,२,११६.
उप√राध्> उप-राधय^e- (> औप-राधय- पा.) पाग ५,१,१२४.
उप√रि, उपरैत् वाधुश्री ३, १९ : २३.
उपरि^f शांश्री ६, १२, १२××; काश्री; आपमं २,८,११; †^g; आश्रि १, ३, ५; ९; †^h; भाग २,२२; †ⁱ; †^j; हिश्रि १, ११, ५; †^k; कौश्रि ५२, १४; †^l; पा ५, ३, ३१; ८, २, १०२; उपरिऽउपरि काश्री ८, ९, ९××; आपश्री; पा ८,१,७.
उपरि-जनन- -नम् काग ३०, ६; वाग १६,३.
उपरि-जानु^m- -नु काग ४, ९; बौश्रि २, ५, ७२; ३, ३, १६; आपध १, २४, ११; २८, ११; २, १८, ५; हिध १, ६, ६०; ७, ४७; २, ५, ५७.
उपरि-तर- -रम् भाश्री १, २५, १३.
उपरि-द्(शा>)शⁿ- -शम् द्राश्री ५,२,९; लाश्री २,६,४.
उपरि-नाभि^o- -भि काश्री ७, ३, १; १६,३,८; ५, १; १६; वाश्री २, १, ३, ८; वैश्री १२, ७ : ११; †.
उपरि-पाका(क-अ)र्थ^p- -स्व- -स्वात् मीस् १०, १, ५६.
उपरि-भाव- -वम् या १, ३.
उपरि-मेख(ला>)ल^q- (> औप-रिमेखलि- पा.) पाग २, ४, ६३.

उपरि-वासस्^r- -सः मीस् १२, ३, २.
उपरि-शून्य^s- -नम् अश्रि ९, ६; †.
उपरि-शय्या^t- -य्या काग ६०, ९; -य्याम् आपश्री † १०, १३, ६; २२, ३, १६; बौश्रि १, ५, २७; आपध २, ६, १५; हिध २, २, १६.
उपरि-शरण- -णे वाग १७, १३.
उपरि-शिरस्^u- -रः कौश्रि ८६, १२.
†उपरि-पद्^v- -पद्ः बौश्री १२, ४ : ६; शुप्रा ३, ८३; भाग २, ६ : ८.
उपरि-ष्ठा(< स्ता)त्^w आश्री १, ११, ४ ××; शांश्री; आश्री २०, १३, १२; या १, ४; १५; २०; २, ६; १३; २३; २४; २७; ४, १०; १५; १६; ५, ३; ६, ४; ९; ७, ९; २०; पा ५, ३, ३१; उपरिष्ठात्ऽउपरिष्ठात् आश्री ११, ४, १.
उपरिष्ठाज्-जप- -पः द्राश्री ५, ३, १९; लाश्री २, ७, १८; -पम् द्राश्री ५, ४, १४; लाश्री २, ८, १४.
उपरिष्ठाज्-जाग(त>)ता^x- -ता अश्रि ४, ११.
उपरिष्ठाज्-ज्योतिष्मती^y- -ती अश्रि ६, १४०.
उपरिष्ठाज्-ज्योतिस्^z- -तिः लुस्^{aa} २, १२ : १५; २०; निस् १, २ : १६; २, ११ : ३३; शुश्रि २, १३६; अश्रि ४, २; १०, १०; ११, ९; पि ३, ५४.

a) पा १, ३, ८४ परामृष्टः द्र. । b) विप. । बस. । c) उप. भावे अप् प्र. उंसं. (पा ३, ३, ६३) ।

d) =ग्राम-विशेष- । व्यु. ? । e) पृ २५५ k द्र. । f) वैप १ द्र. । g) शोधः वैप १ परि शौ ४, ९, ९ टि. द्र. । h) परि इति पाठः ? यनि. शोधः (तु. संस्कृतः टि., शंपा. [भू. स्तौ ५, १०] च) । i) अश. वा. क्रिवि. । j) णाभि इति पाठः ? यनि. शोधः । k) मलो. कस. > बस. । l) व्यप. । बस. । m) मलो. कस. । n) अश. । उप-शि^o इति MW. ? । o) ष्टाह् इति पाठः ? यनि. शोधः । p) =छन्दो-विशेष- । q) =षडह-विशेष- ।

औपरिष्ठाज्ज्योतिष^a-
 -पम् ऋअ २, ८, ३५.
 उपरिष्ठाज्ज्योतिष-जगती-
 -त्यः अअ २०, १०.
 उपरिष्ठात्-काल^b- -लः आपथौ
 १५, ४, १३; ५, ५; ६, १२; भाथौ
 ११, ४, १४; ५, ५; ६, ९; तिथौ
 २४, १, २२.
 उपरिष्ठात्-त्रिकद्वक^b- -केण
 आपथौ २२, २२, ६; हिथौ १७,
 ८, १४.
 उपरिष्ठात्-पृष्ठ्य^b- -ष्ट्याः आपथौ
 २३, ९, १३; हिथौ १८, ३, १६.
 उपरिष्ठात्-स्वाहाकृति^c- -त्यः
 वौथौ २४, ३६, १०; -तिम् वौथौ
 ४, ७ : १६.
 उपरिष्ठाद्-अतिरात्र^b- -त्रः हिथौ
 २८, १, ३; -त्रम् काथौ २४, ४,
 ३७; -त्राः शाथौ १६, ३०,
 १२; आपथौ २२, १८, १; हिथौ
 १७, ६, १.
 उपरिष्ठाद्-अलङ्कार^b- -राः
 आपथौ ६, ३, २; हिथौ ३, ७,
 १२.
 उपरिष्ठाद्-आसेचन-वत्- -वत्
 आपथौ १२, २, १४; -वन्तम्
 आपथौ १५, २, १४; -वन्ति
 आपथौ १२, १, ४.
 उपरिष्ठाद्-उपया(म >)मा^b-
 -मया आपथौ १२, १५, ३;
 -माः हिथौ ८, ४, १२.
 उपरिष्ठाद्-प्री(वा >)व^b- -वम्
 वाथौ १, २, ४, ४०.
 उपरिष्ठाद्-द(शा >)श^b- -शम्
 हिथौ ७, २, ३९; निस् १, ११ :

१९.
 उपरिष्ठाद्-वैश्व- -क्षम् गोगृ ४,
 ५, १३.
 उपरिष्ठाद्-वैश्वी-बृहती^d- -ती
 अअ ३, २९.
 उपरिष्ठाद्-बार्ह(त >)ता^b- -ता
 अअ ९, ५; -ताः अअ ९, ५.
 उपरिष्ठाद्-बृहती- -ती निस्
 १, २ : २३; ऋअ १, ७, ४;
 शुअ २, ४४; ५५x; अअ;
 -त्यः अअ ८, ८; १०, १०; -त्यौ
 अअ २, ५; १८, ३; २०, ५४.
 उपरिष्ठाद्बृहती-बृहती- -त्यौ
 ऋअ २, ८, ४६.
 उपरिष्ठाद्-भाग^b- -गानि अप १,
 ५, ५; ६.
 उपरिष्ठाद्-भूरिग्-बृहती- -ती
 अअ ३, २३; ८, ७.
 उपरिष्ठाद्-धिराङ्-बृहती- -ती
 अअ १, १८; २, १४; २६; ३१;
 ३३; ३, २१; ८, १०(२); ९, १;
 १०, ११; १२, २; -त्यः अअ
 १०, १०.
 उपरिष्ठाद्-नाभि^b- -भि माथौ
 ६, १, १, २५.
 उपरिष्ठाद्-निचृद्-बृहती- -ती
 अअ ८, ७.
 उपरिष्ठाद्-निर्बाध^b- -धम्
 आपथौ १६, २२, ३; माथौ ६,
 १, ४, २; ७, २; वाथौ २, १,
 ३, १.
 उपरिष्ठाद्-महा-बृहती- -ती
 अअ २, ३.
 उपरिष्ठाद्-मास^e- -सम् वौथौ
 १७, २५ : १.

उपरिष्ठाद्-लक्ष(रा >)णा^b-
 -णा आथौ २, १४, २०; वाथौ
 १, १७, १७.
 उपरिष्ठाद्-लक्षमन्^c- -क्षमा
 आपथौ १९, १८, ९; २४, १३, ८;
 वौथौ २६, ४ : १४; हिथौ २२,
 २, ५; -क्षमाणम् आपथौ १६,
 २४, १२; हिथौ ११, ७, ४०.
 उपरिष्ठाद्-लोमन्^b- -म हिथौ ७,
 ६, ३४.
 उपरि-स्थ- -स्थम् पा ६, २, १८८.
 उपरि-स्पृश^c- -स्पृशम् हिथौ २१,
 १, २१.
 उपरि(रि-अ)भाव-वचन- -नम्
 पावा १, ४, ११०.
 उपरि(रि-अ)र्ध-धा- -र्धा वौथौ ७,
 १३ : १; २; -र्धाम् वौथौ ३,
 १० : ८; ७, १३ : २; -र्धे वौथौ
 ७, ६ : ८; ७ : २३; ८, २ : ४;
 वैथौ १५, २७ : १०.
 उपरि(रि-अ)दि- -दिषु पावा २, ३,
 २.
 उपरि-वभ्रव^f- -वः कौस् ८०, ५४,
 अअ ६, ३१; ७, ८; ७५.
 ?उपरिष्ट- -ष्टानाम् चाअ ३८ : ९.
 ?उपरि(ष्ट >)ष्टा-क(र्ष >)र्षी^g-
 -र्षी ऋत ५, १, ३.
 उपरीति^h- -तिः वौथौ १७, १८ : ४.
 उप√रु > उप-रव^c- -वाः हिथौ ७, ६,
 १; वौशु ४:११; -वाणाम् वौथौ
 ६, १० : १९x; माथौ; लाथौ
 १०, १५, १७?; -वान् शाथौ
 १३, २९, ६; काथौ; -वे शाथौ
 १३, १२, ९; काथौ; -वेभ्यः
 वौथौ २३, १२ : २१; -वेषु

a) विप. । तस्येदमीये ऋणि प्र. उभयवद्वृद्धिः उस्. (पा ७, ३, २०) । b) विप. । बस. ।

c) वैप १ द्र. । d) विप. । बस. > कस. । e) नाप. । बस. । f) = ऋषि-विशेष- । व्यु. ? । g) विप. ।

बस. पूप. ? । h) = सर्प-विशेष- । व्यु. ? । i) 'वानाम् इति पाठः ? यनि. शोधः ।

आपश्रौ ११, १३, ४; काठश्रौ.
 औपरव^०- -वम् शुभ्र १,
 ३२७; -वस्य हिश्रौ ७, ६, ३९;
 -वागाम् माश्रौ २, २, ३, ४;
 -त्राणि शुभ्र १, ३२९; -वेण
 हिश्रौ ७, ६, ३०.
 उपरव-कर्मन्- -मं आपश्रौ
 ११, १०, १९; वैश्रौ १४, ७ : २;
 १२ : ३; हिश्रौ ७, ७, २६.
 उपरव-काल- -लात् बौश्रौ
 २१, १४ : १; २२, ५ : १; -ले
 बौश्रौ ९, १४ : ५; २१, ११ :
 १८.
 उपरव-देश- -शः वैश्रौ १४,
 ४ : ९; -शम् वैश्रौ १३, १६ :
 ५; -शात् काश्रौ ८, ३, १३;
 माश्रौ २, २, १, ५३; -शे काश्रौ
 ७, ६, १; आपश्रौ १०, २०, १३;
 वैश्रौ १२, १५ : १; वैताश्रौ
 १३, ७.
 उपरव-न्यन्त- -न्ते आपश्रौ
 ११, ११, ८५.
 उपरव-पांसु- -सुभिः आपश्रौ
 ११, १३, ७; ८; -सूनाम् बौश्रौ
 २१, १५ : ११.
 उपरव-बिल- -ले हिश्रौ ७, ६,
 १०; १३.
 उपरव-मन्त्र- -न्त्रः मीस् ११,
 ४, ५३; -न्त्रान् आपश्रौ ११,
 ११, ७.
 उपरव-स्थान- -नेषु काश्रौ २४,
 ५, २९.
 उपरिष्यते जैश्रौका ५३.
 उप✓रुषू, णउपो(प+उ)रुष्वे शाश्रौ

६, ५, ६; ऋञ् २, ७, ७७.
 उप✓रुषू, उपरुन्धन्ति आपश्रौ २०,
 १३, ६; २१, ८, ३; वाश्रौ ३, ४,
 ३, ५; हिश्रौ १४, ३, १२; १६,
 ३, ३९; वाध २८, १७; उप-
 रुन्ध्यात् आपध १, ८, २५; २,
 ९, ११; बौध ४, १, १२; हिध
 १, २, ११३; २, १, १२६.
 उपरुष्यते वाधूश्रौ ४, ११४ : ५.
 उपरोधयेत् नाशि २, ८, ९.
 उप-रुद्ध- -द्धाः बौध २, ५, ९; -द्धे
 अप्राय ५, २.
 उप-रोध- -धः शंघ २६१; मीस्
 ८, ४, १५; -धम् हिध २, १,
 १२७^b; -धेन नाशि २, ८, ९.
 उप-रोधिन्- पाग ३, १, १३४.
 उप(प✓रुषू)र्षू (हिंसायाम्), उपर्षन्ति
 शौच ३, ४७^क.
 उपल, ला^०- पाउभो २, ३, ९७; पाग
 ४, ३, ७६; -लः माश्रौ २, ३,
 १, २१^क; अप ४८, १०१^क; निघ
 १, १०; या २, २१^क; -लम् अप
 ७१, १३, ५; -लाम् काश्रौ २,
 ४, १५, ५, ५; आपश्रौ; -लायाम्
 आपश्रौ १, २०, ३; बौश्रौ २४,
 २५ : १९^क; भाश्रौ १, २१, १०;
 माश्रौ १, ३, ५, १३^क; वाश्रौ १,
 ३, ७, १४^क; वैश्रौ ४, ७ :
 ३; हिश्रौ १, ५, ५६; -ले
 माश्रौ २, ३, ३, ४; -लेन वैगृ
 २, १३ : ८; अप्राय ५, ६; -लेषु
 बौपि ३, ४, २२; या ६, ५.
 औपल, ला^०- पा ४, ३, ७६;
 -लम् शुभ्र १, ६८; -लाम्

आमिगृ २, ५, ३ : २२; बौगृ ३,
 ७, १७.
 णउपल-प्रक्षि(रु>)णी^१- णी अप
 ४८, ११५; निघ ४, ३; या ६,
 ५.
 उपल-प्रक्षेपि(रु>)णी- णी या
 ६, ५.
 उपल-मणि- -णीनाम् वाध ३,
 ५०; बौध १, ५, ३८.
 उपल-मणि-शङ्ख-शुक्ति- -क्तीनाम्
 गौध १, ३२.
 उपल-राजी- -जीम् भाश्रौ ७, ६,
 ११; हिश्रौ ७, ८, ५.
 उपल-रधिर-पांसु-वर्ष- -र्वेषु वाध
 १३, ३५.
 उपल-वर्षम् अप ७२, ३, ४.
 उप✓लक्ष, उपलक्ष्यते शाश्रौ १,
 १६, ९; माश्रौ ५, १, ७, १५; १०,
 २५; २, ३, २१; अप ५८^२, १, ६;
 वृदे ८, ७९; उपलक्ष्यन्ते अप
 ५८^२, ४, १६; ६५, १, ८.
 उपलक्षयति आपश्रौ २४, ३, २१;
 भाश्रौ ९, १५, ३; हिश्रौ २१, २,
 २७; ६३; उपलक्षयेत् बौश्रौ
 २६, ३३; २४; २५; उपलक्षयेत्
 आपश्रौ १, २, ७××; भाश्रौ;
 माशि ४, ३^६.
 उपलक्षयति माश्रौ १, ५, ५, ३.
 उप-लक्षण- -णम् मीस् ३, २, २९;
 १०, ४, ४९^२; ५७; ११, ४, २८;
 २९.
 उपलक्षण-त्व- -त्वात् मीस् १०,
 ४, ४९.
 उप-लक्षित- -तम् शुभ्र ४, १९२;

a) विप. । साऽस्यदेवतीयस् तस्येदमीयश्च अण् प्र. । b) पृ १८० c) टि. अनुपरोधम्... इति मूलतः
 पाठस्य सतः। <> उपरोधम् इत्याकारकः शोषः द्र. । c) पामे. वैप १, ९२४ S द्र. । d) =मेघ-
 । या. निघ. प्रसू. । शिष्टं वैप १ द्र. । e) विप. । साऽस्यदेवतीयः अण् प्र. । f) वैप १ द्र. । g) °क्ष्येत् इति
 पाठः ? यनि. शोषः ।

-ताः बौध्नी १७, ११ : १२; २९, ८ : २१; शुभ्र ४, १९३.
 उप-लक्ष्य आश्रौ १, १२, ३१; हिश्रौ २१, २, ३६; ४९.
 उप-लक्ष्य- -क्ष्यः वृदे १, ४५.
 उप-लक्ष्मी- -क्ष्यै माण्ड २, १३, ६१.
 उप/लभ्, उपालभत् वृदे ३, १३४; ४, ५२; उपलभेत आपध २, २१, १६; हिध २, ५, १२५.
 उपलभ्यते निस् ३, ११ : १४; अप्रायः; उपलभ्यन्ते आपध १, १६, १२; २, २४, १३, हिध; उपलभ्येत नाशि १, ६, १७.
 उप-लब्ध, बधा- -ब्धाः वाध २०, ४५; -ब्धे भाण्ड ३, १३ : १४.
 उप-लब्धि- -ब्धिः आपशु ३, १२; बौशु १ : ३८; हिशु १, ५१; तैप्रा २३, ८; १५; पात्रा १, २, ४५; ३, ६७; ३, १, ७; -ब्धेः पावा १, ३, ९; -ब्धौ माशि १, ३.
 उप-लभ्य काश्रौ २५, ९, २; ऋश्र २, ८, १.
 उप-लभ- -भम् हिश्रौ १५, ८, ३०.
 उप-लभन- -ने पावा १, ३, २१.
 उप-लभ्य- पा ७, १, ६६.
 ?उपलाश- -शे माण्ड २, १५, ६.
 उप/लिख्, उपलिखति आपश्रौ ७, ३, १४; उपलिखेत् आपशु ४, ७; हिशु २, ६.
 उप-लिख- -खम् उस् ८, ३६.
 उप/लिप्, म्प, उपलिम्पति वैशु ५, ३ : २७; गोशु ३, ७, ४; उपलिम्पन्ति आपश्रौ १, ६, ११; भाश्रौ १, ६,

१४; उपलिम्पेत् द्राण्ड ३, २, १.
 उपलेपयेत् कौशु १, १५, १;
 शाण्ड १, २३, १; अप ३६, २५, १.
 उप-लिप्त- -से शाण्ड १, ५, ३^b; ५, १, ७; पाण्ड; -सेषु विध ८५, ६२.
 उपलिप्त-केश-श्मश्रु- -श्रुः आपध १, ८, २; हिध १, २, ९०.
 उप-लिप्य शाश्रौ १८, २४, २७; काश्रौ; कौशु १, १, ६^b.
 उप-लेपन- -नम् आमिण्ड २, ४, ७ : ४; शंशु १६६; ३३५; ३४७; वीध १, ५, ४६; ६, १६; -नात् वाध ३, ५७; वीध १, ६, २०.
 उपलेपना(न-आ)दि- -दि वैश्रौ ३, ५ : ३.
 उप/लुभ्, उपलोभयन्ति पाण्ड १, १२, ४.
 उप-लेट- , उप-लोट- पा ६, २, १९४.
 उप-व (<अव) / क्षि, उपवक्षयेत् अप्राय ५, ३.
 उप/वच् > उप-वक्तु- -क्तः आश्रौ ५, ७, ३; ५; शाश्रौ ७, ६, ३; ६; -क्ता आश्रौ ८, १३, ९; शाश्रौ १०, १४, ४; १५, ४; १६, ४; १८, ४; वैशु ५, ४ : ३; ६; १०; १३.
 †उप-वाच्य^d -च्यः माश्रौ २, ५, ४, २४; हिश्रौ १५, ७, १३; वैताश्रौ १६, १५.
 उपो(प-उ)क्त->°क्त-व(त् >) ती- -ती आश्रौ २, १४, १९.
 उप-वत् -वत् निस् ३, ३ : १४.
 उपवती- -ती द्राश्रौ ८, १, २०;

लाश्रौ ४, ५, १९; निस् ३, २ : २८; ३ : ८; १२; १५; २४; ४, १३ : १६; ५, ८ : १४; १९; ८, २ : ३; ६ : १; -तीम् निस् ५, ८ : १२; ७, १० : १५; ८, ७ : ३३; -त्याः शुभ्र १, १८०.
 ?उपवत्तौ निस् ५, ६ : १२.
 उप-वत्स- उप/वस् (निवासा^o) द्र.
 ?उपवत्स्वशन^o -नम् माश्रौ १, ४, १, ५; ५, १, १, २^f; ५, १, ५, ५७; -ने माश्रौ १, १, १, ११.
 उप/वद्, उपवदन्ति निस् २, १ : ३९; उपवदेत् बौश्रौ १८, २६ : २१^g; अप्राय २, ९^f.
 उप...वदित्यन्ति बौश्रौ १८, २६ : ९; उपावादीत् बौश्रौ १८, २६ : १८; उपवादिष्ट बौश्रौ १५, ८ : २; उपावादिष्म बौश्रौ १८, २६ : १७.
 उपवाद्यन्ति माण्ड १, ९, २९.
 उप-वदित^h -तान् निस् ४, ९ : २५.
 उप-वाद- -दः मीस् १०, ८, ९; -दात् निस् २, १ : ३८; -दान् वाश्रौ १, १, १, ३.
 उप-वादिन्- -दिनः बौश्रौ १८, २६ : ९.
 उपो(प-उ)द्य आश्रौ ८, ४, १; लाश्रौ १०, ७, ४.
 †उप/वध्, उपावधीत् शाश्रौ १२, २४, २^h; उपावधीः आपश्रौ १०, २, ११^f; हिश्रौ १०, १, १५^f.
 उप-वन- -नेषु विध ८५, ६१.
 उप/वप्, उपवपति आपश्रौ १, २०, ९x; बौश्रौ; उपवपतः भाश्रौ

a) = ग्रन्थ-विशेष- । b) सपा. °लिसे <> °लिप्य इति पाभे. । c) विप. । वस. > द्रस. ।

d) वैप १ द्र. । e) पाठः ? । = उपवत्स्यद्-भक्त- । उपवत्स्य(त् >)द्-अशन- इति, [पक्षे] उपवत्सु- (<सन्नताद् उप/वस् [तु. धञ्-]) + अशन- [षस.] इति च संस्कर्तुरभिमतः शोधः । f) पाभे. पृ ४२० a द्र. । g) संप्रसारणाऽभावः उदसं. । h) धा. प्रवेशने वृत्तिः ।

८,७,९; वैश्रौ ८,११ : ४; हिश्रौ
५, २, ४३; उपवपन्वे आपश्रौ
१३, १२, ९; उपवपन्ति आपश्रौ
२०, १६, १९××; माश्रौ; उप-
वपेत् आपश्रौ ८, ८, १३; बौश्रौ;
द्राश्रौ १३, २, १०; लाश्रौ ५, ३,
२१^१.

उप-वपत्- -पन् हिश्रौ १६, १, ३९.

उप-वपन- -नात् भाश्रौ ८, १, ८.

उप-वाप्य बौश्रौ २१, २ : ९; १०;
२८.

उपो(प-उ)स- -सः आपश्रौ २३,
१२, १५; हिश्रौ १८, ४, २९;
लाश्रौ १०, १५, १६†; -सम्
हिश्रौ ४, ५, ५६.

उपो(प-उ)प्य आपश्रौ ९, १९, १३;
बौश्रौ २१, १५ : १२; भाश्रौ
१२, ५, १०; वैश्रौ २०, ३८ : ८.

उपो(प-उ)प्यमान- -नम् वाश्रौ १,
६, ७, ३६.

उप√वर्ण, उपवर्णयति निस् ३, १० :
१७.

उप√वलह्, उपवलहामसि^१ आश्रौ
१०, ९, २१; शाश्रौ १६, ६, ३;
याशि २, १५

उप√वस (निवासानशनयोः)^०, उप-
वसति आपश्रौ १, १४, १६;
२०, १, १४; बौश्रौ; उपवसतः
कौसू ६७, १७; १४०, ४; अप
१९, १, ३; उपवसन्ति आपश्रौ
२१, २४, ३; बौश्रौ; ऋउप...
वसन्ति बौश्रौ २, ११ : १८;
२०, ४ : ४०; ऋउपवसामि

आपश्रौ ४, ३, ६; भाश्रौ ४,
५, ४; हिश्रौ ६, १, ३९;
ऋउपवसन्तु आपश्रौ ४, ३,
६; भाश्रौ ४, ५, ४; हिश्रौ ६,
१, ३९; ऋउपवसस्व कौसू २, ७,
२१; शासू २, १२, ६; उपावसन्
वाधुश्रौ ४, २६ : ३६; उपवसेत्
काश्रौ २, १, १; आपश्रौ.

उपवासयति आपश्रौ ११, १७,
५; वैश्रौ १४, १५ : ११; उप-
वासयेत् कासू ४५, ३; अप १,
१०, २.

उप-वस्त्^१ > औपवस्त्^० - स्सम्
वाश्रौ १, ४, १, ५^१.

उप-वस्यत्- -स्यन् आपश्रौ ४, ३,
११; वाश्रौ १, ४, १, ५; -स्यन्ती
आपश्रौ ४, २, ४.

उपवस्यद्-भक्त^० - क्तम् वैताश्रौ
१, ११; ६, १२; कौसू १, ३१;
८, १.

उप-वसत्- -सतः बौश्रौ २०, १ :
५; ८; -सन् भाश्रौ ४, ४, ७;
हिश्रौ ६, १, ३८; बौध ४, २,
१५.

उप-वसथ^१- पाउ ३, ११६; -थः
शाश्रौ १३, १९, ४; आपश्रौ २१,
४, १८; बौश्रौ २, ८ : १; ११ :
१८†; ३, १२ : १; १२; २६;
६, १० : १××; -थम् बौश्रौ ३,
१३ : ६; १८, २६ : १०; २०,
१ : १; ६; १५; -थस्य बौश्रौ
१, १ : ७; -थात् आपश्रौ १,
१३, १२^१; २०, ८, १६; बौश्रौ

१२, २० : ९××; -थे शाश्रौ ५,
११, १५; १५, १; काश्रौ.

औपवसथ^०- -थात् वैश्रौ ३,
८ : ५; हिश्रौ १, ३, ५१; हिपि
२१ : ९.

औपवसथिक, का^१- -कम्
आश्रौ १२, ४, १०; बौश्रौ २५,
३२ : ३४; गोसू १, ५, २७; ६,
१; ३; ४; द्रासू २, १, ४; ५;
-का बौश्रौ २५, २७ : ७; ११;
१९; २४; ३०; २८ : ७; १३; १९;
-काथै बौश्रौ २४, १७ : ८.

औपवसथ्य^१- -थ्यात् काश्रौ
८, ३, ६; २०, ३, ९; बौश्रौ १८,
२३ : ८; १२; १७; -थ्ये आश्रौ
४, १, २६; ८, १७; काश्रौ १८, ३,
३; आपश्रौ २१, १४, ११;
वैश्रौ ९, १ : २; हिश्रौ ३, ५,
२०; २८; ५, १, २; १६, २, ३;
वैताश्रौ १५, ५; २९, १४; हिपि
२१ : ९; अत्राय २, ९.

उपवसथ-कर्मन्- -मै लाश्रौ १०,
११, २; ४; ६; ९; १२.

उपवसथ-ग(वी >)वि-प्रभृ-
ति^१- -ति बौश्रौ २४, १५ : ६.

उपवसथ-प्रभृति- -ति काश्रौ
१२, १, २५; २, ७.

उपवसथ-स्थान- -नानि बौश्रौ
२४, २१ : ४.

उपवसथा(थ-आ)दि- -दि हिपि
२१ : १०.

उपवसथा(थ-अ)न्त- -न्तम्
लाश्रौ ८, ४, ६; १२.

a) उपोपेत् इति पाठः? यनि. शोषः (तु. द्राश्रौ.) । b) पामे., BI प्रभृ. शोधक वैप १, ९४० k [तु. अत्र. प्रभृ.] च द्र. । c) पा१, ४, ४८ परामृष्टः द्र. । d) =उप-वस्त्-, उपवास- । उप. भावे सः प्र. (पाउ ३, ६२) । e) विप. । तस्येदमीयः अण् प्र. । f) पामे. पृ ४२० a, ७०६ f च द्र. । g) =उपवासात् पूर्वभोजन- । षस. । h) =उपवास-दिवस-, गृह- प्रभृ. । वैप १ प्रभृ. द्र. । i) विप. । तस्येदमीयः षक् प्र. उरसं. j) विप. । तस्येदमीयः अण् प्र. उरसं. (पावा ४, १, ६५) । k) सस. > बस. पूष. =कर्म-विशेष- [तु. बौश्रौ २, ८] ।

उपवसथीय^a-¹ -ये बौध्री ३,
१५ : १; ५, १ : ७; १०, १६ :
१९; १९ : ३; १२, २० : २१;
१५, ११ : ११; १६, २४ : ३;
१७, ११ : ९; १८, ४१ : ७;
२३, २ : २२; ३ : २२; २४,
२० : ४; २१ : ६; २६, २ :
१८; वैश्री १८, ९ : ९.

उपवसथ्य^b -थ्ये द्राश्री १, १,
२२; ५, १, ३३; लाश्री १, १,
२०; २, ५, २८.

उपवसथ्य-प्रभृति-^c -ति द्राश्री
७, ३, १०; लाश्री ३, ३, १२.

उप-वसन-^d -नात् वृदे १, २५; २८;
३२; -ने शुप्रा ३, १४.

उप-वसि(त>)ता-^e -ताम् वाद्य
१३, १.

उप-वस्त^f > औपवस्त^g -स्तम्
आपध २, १, ५; हिध २, १, ५.

उप-वस्तवै आपश्री ११, २१, ८.

उप-वस्तव्य-^h -व्याः गोगृ १, ५,
५.

उप-वस्तृ-ⁱ पावा ५, १, १०५.

औपवस्त्र-^j पावा ५, १, १०५;
-स्त्रम् कागृ ४६, २^e.

उप-वास^k पाग २, ४, ३१; ४,
४, १०३; ५, १, ९७; १०१;
-सः आगृ १, १०, २; कौगृ;

आपध १, ८, २९^e; -सम् वैगृ
२, ३ : ७ x x; अग; -सात् वाध
१०, ५; -सेन कप्र ३, ८, ६; शंघ
३३९; -सैः आज्यो १४, ८;

९; -सी बौध ४, ५, १७.

औपवास-^l पा ५, १, ९७.

औपवासिक-^m पा ४, ४,
१०३; ५, १, १०१.

उपवास-त्रय-ⁿ -यम् वाध २७,
१६.

उपवास-न्याय-^o -येन वाध २२,
११.

उपवास-घ्नत-^p -तम् विध २५,
१६.

उपवासा (स-अ) न्तरित-^q -तः
विध ४६, २२.

उपवासिन्-^r -सी बौध २, ७,
२६; काध २७० : ४.

उप-वास्य पागृ १, १४, ३; कागृ
५३, २.

उपो(प-उ)षित,ता-^s -तः जैगृ १,
१७ : ८; अग; -तम् विध ९,
३३; २५, १५; -ताभ्याम् आपगृ

७, १७; -ताय गोगृ ३, २, २९;
द्रागृ २, ५, २९; -तायाः आगृ

१, १३, २.

उपो(प-ऊ)षिवस्-^t -षुषि पावा ६,
१, ३७.

उपो(प-उ)व्य शाश्री १, ३, १; ४,
१७, ३; काठश्री.

उपो(प उ)व्यमा(ण>)णा-^u -णाम्
वैताश्री २४, १५.

उप-वसथ-^v प्रभृ. उप√वस्
(निवासा^w) द.

?उपवसिताः^x आगृ १, १४, ७.

उपवस्ति^y (> औपवस्तिक-^z पा.)

पाग ४, ४, १२.

उप√वह्, उपवहति कौस् ६८,
२३^e.

उपो(प-ऊ)ठ-^{aa} ठम् वैगृ १, १२ :
४^{ff}.

उप-व(<अव)√हा(गतौ) >उपव-
हाय आपश्री २२, १३, २^g.

उप√वा, उपवायात् काश्री २५, १२,
११; १३.

उपवाजयते वैश्री ८, ११ : १०;
उपवाजयति काश्री २६, ४, २;

आपश्री १५, ८, ६; बौश्री १,
१५ : ६; ११; १९ : ५; ४, ६ :

३; ५, ३ : २; १३ : ३; ६, १८ :

२३; २० : २१; ११, ४ : २;
१५, २८ : २; भाश्री २, १२, ३;

११, ८, १०; माश्री १, ३, १, ४;
वाश्री १, ३, ४, २; हिश्री २, १, ५;

वैताश्री २, १३; उपवाजयतः
बौश्री ५, ७ : २.

उप-वाजन^{bb} -नम् आमिगृ ३, ५,
७ : १८^h; बौपि १, ६ : १३;

-नैः काश्री २१, ३, ७.
औपवाजन^{cc}-

-नैः काश्री १२, ३, ९.
उप-वाजयत्-^{dd} -यन्तः काश्री २१,
३, ७.

उप-वाजयमान-^{ee} -नाः द्राश्री ९, १,
३ⁱ; लाश्री ३, ५, ३^j.

उप-वाज्य काश्री ३, १, १२; आपश्री-
उप-वाज्यमान-^{ff} -नाः द्राश्री ९, १,
३; लाश्री ३, ५, ३.

- a) छः > ईयः प्र. उंसं. (पा ४, ३, १३१) । b) = उपवसथीय- । यत् प्र. उंसं. (पा ४, ३, १२१) । c) = उपवास- । उप. भावे क्तः प्र. । d) स्वार्थे अण् प्र. । e) = त्रत्याऽऽहार- । f) = उप-वस्त- । g) पामे. पृ २९३ e द्र. । h) पाठः ? उपा(पा.कप्र.), अ) वसिताः इति शोषः (तु. परि. अव-सिता पागृ १, १५, ८ टि.) । i) अर्थः व्यु. च ? । उपस्ति- इति पाका. । j) पामे. पृ ६९३ e द्र. । k) = व्यजन- । करणे कृत्. । l) 'वाजि' इति पाठः ? यनि. शोषः (तु. बौपि.) । m) तस्येदमीयः अण् प्र. । ज्ञनकैः इति कासं. ।

उप-वाक, का^१-> क-व (<व)दर-
 चूर्ण- -णानि काश्रौ १९, २, २०.
उपवाक, कां-सक्तु- -क्तुभिः आपश्रौ
 १९, ७, १; माश्रौ ५, २, ११, १६;
 वाश्रौ ३, २, ७, ६३; हिश्रौ २३,
 १, २५; -क्तुन् आपश्रौ १९, ६,
 ७; हिश्रौ २३, १, १६.
उप-वाच्य- उप-वच् द्र.
उप-वाजन- प्रभृ. उप-वा द्र.
उप-वात- उप-वै द्र.
उप-वाति (<वात- L <वै),
 उपवातयते आमिष्ट ३, ८, २: १५;
 उपवातयति बौश्रौ ९, ३: २४;
 १०, ६: १; वैश्रौ १३, ४: ८, १८,
 १: ७७; आमिष्ट ३, ८, २:
 ५४; ३: २६; बौपि १, १५:
 २५; ५९; १६: १३; उपवात-
 यन्ते बौपि १, ३: १७; २४; ३१.
उप-वातयत्- -यन्तः आमिष्ट ३,
 ५, ४: ७; १४, २२.
उप-वाप्य उप-वप् द्र.
उप-वास- प्रभृ. उप-वस् (निवा-
 साय^२) द्र.
उप-विक्रन्त^३- -न्तेन आपश्रौ १७,
 २६, १७.
उप-वि-कृ, उप-विकिरति बौपि १,
 १५: ४५.
उप-वि-गुल्फ्, उप-विगुल्फयेयुः
 आश्रौ १२, ८, ३३.
उप-विद् (लाभे), उप-विन्देत् बौग
 ४, ९, १२.
उप-वेत्- -त्तुः आमिष्ट २, ६, ६:
 २८; बौग १, २, ४४.
उप-विश्व, उप-विशति आश्रौ ४, ११,
 ३; शाश्रौ; उपो(प-उ)प-विशति

आपश्रौ १०, ८, १; उप-विशत.
 शाश्रौ ५, १९, १; काश्रौ; उप-वि-
 शन्ति आश्रौ ५, २, ७; शाश्रौ; उपो-
 (प-उ)प-विशन्ति आपश्रौ २०, ६,
 १०; उप-विशेत् आश्रौ १, ३,
 ३१××; शाश्रौ; उप-विशेताम्
 द्राश्रौ १३, २, १; लाश्रौ ५, २, ५;
उप-विशेयुः द्राश्रौ ३, १, १५;
 ३, २७; ४, ३, ११; लाश्रौ १, ९,
 १७; ११, १८; २, ३, १०.
उप-विशेत् वाधूश्रौ ३, ८८: ७;
 बृदे ५, २२; उपा-विशेत् वाधूश्रौ
 ३, २०: ४; हिग १, १७, ५^४;
 उपा-विशेत् भाग २, ३२: १; २.
उप-विशयति काश्रौ १४, ५,
 १८××; बौश्रौ; उप-विशयन्ति
 गोग २, ३, ४: ४, ६; कौस् ८१,
 २१; उप-विशयेत् बौश्रौ २१, ८:
 ३१××; द्राश्रौ.
उप-विशत्- -शतः काश्रौ ४, ७, १९.
उप-विश्य आश्रौ १, ३, २२××;
 शाश्रौ; अप्राय १, ३^१; उपो(प-उ)-
 प-विश्य शाश्रौ ५, ९, ४; ८, ५, ३;
 ९, २; गोग ३, ४, २८.
उप-विष्ट, षा- -ष्टः काश्रौ १८, ५,
 ११; वैश्रौ १५, १८: ४; जैश्रौ
 २६: ६; अ ५, ४, ५; ३३, ६,
 १०; ३८, १, ३; -ष्टम् आश्रौ
 १, १२, ११; द्राश्रौ २, ४, ९;
 लाश्रौ १, ८, ७; -ष्टयोः काश्रौ
 ९, ५, १; -ष्टस्य द्राग २, ३, ७;
 -ष्टा अप १, ४४, ७; -ष्टाः
 वैताश्रौ १९, २३; -ष्टान् पाग
 ३, १०, २२; आमिष्ट २, ३, ३:
 ११; -ष्टाभ्याम् काश्रौ १०, २,

२६; -ष्टान् काश्रौ २, ७, १;
 १०, ७, ३; काठश्रौ १५५; -ष्टाय
 काश्रौ १०, २, २०; १४, ४, १५;
 १५, ५, २२; लाश्रौ ९, २, १०;
 पाग २, ३, ३; -ष्टायाः पाग १,
 १५, ४; कौस् ७६, २६; अप ३५,
 १, ३; -ष्टायाम् आग १, ८, ९;
 १४, ३; -ष्टे आश्रौ ५, ७, १०;
 शाश्रौ १३, २, ५; काश्रौ ९, १२,
 १८; १९, ६, २६; माश्रौ ५, १,
 ८, ११; द्राश्रौ ३, ३, २७; लाश्रौ
 १, ११, १८, वैताश्रौ १६, ७;
 -ष्टेभ्यः पाग २, १०, १८; -ष्टेषु
 आश्रौ ४, ७, २; आपश्रौ १८,
 १८, १०; २०, ६, ११; विध ५,
 १४५; -ष्टौ काश्रौ १५, ६, ४.
उप-विष्ट-होम^४- -माः काश्रौ १,
 २, ७; -मेषु काश्रौ ३, ७, ४.
उप-वेश^५- पाग ४, ४, १२^६; -शः
 बौश्रौ १४, ४: २३^७; -शम् वाश्रौ
 १, २, २, ५; -शाय शाश्रौ
 १३, ५, ४; काश्रौ २५, १४, १५;
 आपश्रौ १४, १९, १; २६, २^८;
 बौश्रौ १४, ४: १७; १८^९××; माश्रौ.
औपवेशि, षि, सिक्- पा ४, ४,
 १२.
उप-वेशन- -नः आश्रौ ५, १२, ४^{१०};
 -नम् आश्रौ १, १२, १०; शाश्रौ
 ४, ६, ६; १४; द्राश्रौ ४, ४, ९; १५,
 १, १७; ३, १६; लाश्रौ २, ४, ५;
 ५, ९, १५; ११, १७; कप्र ३, २,
 १; -नस्य जैश्रौ १०: १०;
 १३: ३०; -नात् बौश्रौ २९,
 १३: ९; द्राश्रौ १५, २, १९;
 लाश्रौ ५, १०, १९; -ने बौश्रौ

a) वैप १, ९४० p द्र. । b) अर्थः व्यु. च ? । = तर्कु- इति C. । c) सपा. तैआ ६, ७, १ परिकिरति
 इति पाभे. । d) पूर्वेषु संधिरार्षः । e) विग. । बस. । f) वैप १, ९४१ b द्र. । g) अर्थः ? । 'वे-', 'वेस-

२०,५ : ११; १४; २१, १८ :
 ७; ९; २२, १ : ८; शांठ ५, ५,
 १; आपठ २३, ९.
 उपवेशन-प्रक्षालना(न-आ)-
 चमन^१- -नम् कौसू ६५, १०.
 उपवेशना(न-आ)दि- -दि आश्री
 १, १२, २८.
 उप-वेशित- -तः वैताश्री ११, ११;
 -ताः शंभ २०५.
 उप-वेशिन्- -शिनम् आज्यो १२,
 ६.
 उप-वेद्य बौश्री १, ४; १३ × ×; माश्री.
 †उप-विष्, उपविष्टि आश्री ३,
 १३, ६; माश्री ३, १२, ९; हिश्री
 २, ६, ३२.
 उपवेष्टि काश्री ४, २, १२.
 उप-वेश^२- -†०षः आपश्री ३,
 १३, ६; माश्री ३, १२, ९; हिश्री
 २, ६, ३२; -षः काश्री ४, २, १२†;
 आपश्री १, ६, ७†; माश्री १, ६,
 १०†; वैश्री ३, ५ : ८†; हिश्री
 १, ३, २†; कप्र २, ८, ३; शुभ्र
 १, ६२; मीसू ६, ४, ४८; -षम्
 काश्री २, ४, २५ × ×; आपश्री;
 -षस्य बौश्री २०, २४ : ४५†;
 -षाय बौश्री १, ३ : २; वैश्री
 ३, ५ : ९; -†षे आपश्री ३,
 १४, १; माश्री ३, १२, १०; वैश्री
 ७, १२ : १२; हिश्री २, ६, ३३;
 -षेण शाश्री २, ८, ८; काश्री २,
 ५, २५; बौश्री १, ३ : ९; १२, ४ :
 ७; २०, ४ : ८; २४ : ४९; २२,
 १७ : १; मीसू ४, २, ८.

उपवेश-करण- -णे बौश्री २०,
 ३ : ३१.
 उपवेश-वत् मीसू १०, ८, ६६;
 ११, ३, ३६.
 उपवेशो(ष-उ)दसन- -नम्
 आपश्री १२, २५, १३; हिश्री ४,
 ४, ७१.
 उप-वेशण- -णम् आमिष्ट २, ३, १ :
 १५.
 उप-वी (गती) > †उप-वी^३- -वीः
 आपश्री ७, १२, ५; बौश्री ४, ५ :
 ३; माश्री ७, ९, ९; वैश्री १०, ९ :
 १६; हिश्री ४, ३, ३.
 †उपवीक्षाय^४- -येण आपश्री १७,
 २६, १७.
 उप-वीज्, उपवीजयति माश्री ४,
 २, २५; उपवीजयन्ति आमिष्ट
 ३, ४, २ : १५; १०, १ : १२;
 बौषि^५ ३, ४, २; ५, २; वैश्री ५,
 ५ : ५.
 उप-वीजयत्- -यन्तः बौषि ३, २,
 ३^६.
 उप-वीत- प्रभृ., उप-व्ये द्र.
 †उप-वीर^७- -रः आपमं २, १३, ९;
 पाठ १, १६, २३; आमिष्ट २, १,
 ३ : १३; काठ ३५, ११^८; भाग
 १, २३ : ३; हिष्ट २, ३, ७;
 -राय जैष्ट १, ८ : १४.
 उप-वृत्, उपवर्तध्वम् वैश्री १५,
 २९ : १३†; उपावर्तत वाधुश्री
 ४, ४७ : ९; उपवर्तत आश्री
 १०, ८, ३; वृष्टे ६, १४५.
 उपवर्तयन्ति बौश्री १५, १९ : ८;

†उपवर्तये आपश्री ८, ४, २;
 बौश्री ५, ४ : २९, ९० : ३०; १७ :
 १८; १८ : २४; हिश्री ५, १, ४५;
 उपवर्तयतु माठ २, १३, ६†;
 उपवर्तय माश्री १, ७, २, २३†.
 उप-वृत् बौश्री २१, १२ : १८.
 उप-वेत्- उप-विद् (लाभे) द्र.
 उप-वेद^९- -दः चव्यू ४ : १०^{१०}; -दाः
 गौध ११, २१; चव्यू ४ : ९.
 उप-वेश- प्रभृ. उप-विश द्र.
 उप-वेष्ट > उप-वेष्टित- >
 ंतिन्^{११}- -ती आपध १, ८, २;
 हिश्र १, २, ९०^{११}.
 उप-वेष्ट्य हिश्री २२, ६, ६.
 उप-वै > उप-वा(त >) ता- -ताम्
 आठ ३, ८, ४; -तायाम् वाश्री
 १, ३, १, ११; वैश्री ४, ९ : ९;
 हिश्री १, ६, २२; -तासु बौश्री
 १०, ६ : २; -ते शाश्री १३, १२,
 ८; -तेषु बौश्री ९, ३ : २४; माश्री
 ५, ४, १३; वैश्री १३, ४ : ८.
 उप-व्या(वि-आ) √ख्या > उपव्या-
 ख्यात- -तम् या २, १२.
 उप-व्या(वि-आ) √वृत्, उपव्यावर्तत
 भाग ३, १७ : २.
 उप-व्या(वि-आ) √हृ > उपव्या-
 हरण- -णम् बौश्री २, १ : १.
 उपव्या-हर्य बौश्री २, ६ : ४.
 उप-व्युष^{१२}- -पम् आश्री ५, ८, ५; १५,
 १८, १३; २२, २५, २०; बौश्री
 १४, ३० : ९†; २०, १ : १५;
 माश्री ५, ४, ४; ११, १९, ३;
 माश्री १, ५, २, ७; वाश्री १, ४,

a) समाहारे द्रस. । b) वैप १ द्र. । c) अत्र देवतात्वेनाप्युपचर्यते (तु. शुभ्र. प्रभृ.) । d) अर्थः व्यु.
 च? । e) ष्वा इति B. । f) = बालप्रह-विशेष- । व्यु. ? । g) अपवीतः इति पाठः ? यनि. शोधः (तु.
 आपमं. प्रभृ.) । h) = आयुर्वेद-, धनुर्वेद- प्रभृ. । प्रास. । i) इनिः प्र. उसं. (पा ५, २, ८८) ।
 j) अपवेष्टिमी इति पाठः? यनि. शोधः (तु. आपध.) । k) अस. समासान्तस् टच् प्र. उसं. (पा ५, ४, १०७) ।
 उप. = व्युष- ।

१, १७; वैश्रौ १, ७ : १५; हिश्रौ ३, ३, २; २३, ४, १४; लाश्रौ ९, ८, ९; कागृ ४, ५, ४; आपध १, ९, २२; हिध १, ३, २३.

उप-व्यु(वि-उ)पसू^a - वसि आमिगृ २, ४, ५ : २; ७, ५ : १०.

उप-व्यु(वि-उ)पसू^b - सम् काश्रौ २१, ३, १३.

उप-व्यु(वि-ऊ)ह (प्रापरो), उपव्यू- हति हिश्रौ २४, ६, २.

उप✓व्ये, ऋउपव्ययामि^c कौगृ २, १, ३१; आमिगृ २, ४, ९ : २४; वागृ ५, ८.

उप-वीत^d - तम् कौगृ २, ८, ६१; शांगृ २, १३, ६१; आमिगृ २, ९, ६ : २७१; वागृ ५, ८१; वैगृ १, ५ : ११; २, ५ : १४; कप्र १, १, २; ३; अप ७०, ५, १; शंध १९७; विध २७, २९; ७१, १५; वंध २, ७, ७; -तानि विध २७, १९; वैध २, २, ३; ७, ७; -ते कौगृ २, ८, ५; -ऋतेन कौगृ २, १, ३१^e; शांगृ २, २, ३; आमिगृ २, ४, ९ : २४; वागृ ५, ८.

उपवीता(त-अ)जिन-मेखला(ला-अ)हतवस्त्र-दण्ड-शारात्रा (व-अ) इम-समिद्-दर्भा (र्भ-आ)दि-संभार^e - रान् वैगृ २, ५ : २.

उपवीता(त-आ)दि-दीनि वैगृ २, ९ : ६; ११ : २.

उपवीता(त-अ)र्थ-र्थे आपध २, ४, २२; हिध २, १, ७५.

उपवीतिन् - तिनः शाश्रौ १६,

१, १६; काश्रौ १, ७, २३; -तिनम् कप्र ३, २, ४; -तिना कप्र १, १, ४; २, ८, १२; -तिनाम् वाधुश्रौ ३, ७९ : ७; -ती आपश्रौ १, ७, ७; ८, ३; हिश्रौ २, ७, १४; आमिगृ १, ६, २ : ५; वैगृ १, ५ : ८; ११; २, २ : १२; ५, ६ : १; कप्र २, २, ३.

उपवीतिन्-त्वात् आगृ ४, ७, १३.

उप-वीय, वैश्रौ ९, ४ : १५; ५ : १०; आगृ ४, ८, १४१.

उप✓व्रति (<व्रत-), उपव्रतयेरन् आश्रौ १२, ८, ३९.

ऋउप✓शक्, उपशिक्ष छुस १, २ : १०; ४ : ३१; ९ : २; २, ५ : १९; उप(शिक्ष) सात्र २, १११; उपशिक्षेयुः आपश्रौ १४, १५, ११; हिश्रौ १०, ७, १७; ऋउप-शिक्षेम आपश्रौ १६, ३४, ४; वैश्रौ १२, २१ : ३४; हिश्रौ ११, ८, १५. उप-शिक्ष्य आपश्रौ २०, १३, ८; हिश्रौ १४, ३, १२^f.

उप-शत^g - तानि बौश्रौ २३, ३ : १४.

उप-शद^h - दस्य आश्रौ ९, ८, २२.

बौपशदⁱ - दः काश्रौ २२, १०, १३; -दे लाश्रौ ९, ४, ३; -देन बौश्रौ १८, ४५ : ३४; ३५; ३९.

उप✓शाम्, उपशाम्यति कौसू ७३, ४१; अप ३७, १०, १; ११, १; १३, १; उपशाम्यसि अप्राय २, ५; उपशाम्यत् आगृ १, ९, ३; अप्राय १, ५; २, ५^j.

उपशाम्येत् कप्र २, ९, १६.

उप-शाम-मः या १४, १०; -मम् अप ३५, १, १२.

उप-शाम्य काश्रौ ४, ८, १३; १२, १, २५; २५, ३, ९.

उप-शान्त-न्ते कागृ ४६, ३; कप्र ३, १, ३.

उप-शाम्यत् - म्यन् या ४, १४.

उप-शाम्यमान- नः अप्राय २, ५^k.

उप-शाय-, यिन्- उप✓शी द.

उप-शा(ला>)ल- पावाग ४, ३, ५८; -ले कौसू ६९, २.

बौपशाल- पावा ४, ३, ५८.

उप✓शी, उपशेते बौश्रौ ४, ४ :

११×; वैश्रौ; उपशेरते शाश्रौ १४, २२, १०; १२, बौश्रौ १७, १२ : ३; भागृ २, १९ : १३; ऋउपशेधे आमिगृ ३, ५, ६ : १६, वीपि १, ५ : ४; ऋउपशेव् > प्वा आपश्रौ १७, ५, १६^l; वैश्रौ १८, २१ : १५; १८; हिश्रौ ११, ८, १०^m; आमिगृ २, १, १ : १६; भागृ १, २२ : १८; २, २१ : ६; हिगृ २, २, ७ⁿ; उपशयीत कागृ ४६, २; कौसू ४६, १६.

उप-श^o -> शो(श-उ)क्त^m - क्तानि निसू ३, १३ : २९.

उप-शय, या^p - यः वाधुश्रौ ३, ७६ : ८; हिश्रौ १४, २, ४०; १६, २, ३; -यम् शाश्रौ ६, ९, ८; आपश्रौ १४, ५, ८; ६, १२^q; बौश्रौ १५, १४ : ४; २३ : ३; १७, १३ : १४; २६, २४ : ३;

a) अस. > प्रास. । b) समासान्तष् टच् प्र. इति a टि. विशेषः । c) पाभे. पृ ६९२ h द. । d) = यज्ञोपवीत- । e) दृस. > वस. > कस. । f) श्ले(क्ष्ये) इति पाठः ? यनि. शोधः (तु. आपश्रौ.) । g) विप. । बस. (पा २, २, २५) । h) = एकाह-विशेष- । व्यु. ? । i) स्वार्थे अणु प्र. । j) उपवेशुषु इति पाठः ? यनि. शोधः (तु. काठ ३९, ९ आश्रौ. च) । k) उपवेश्य इति पाठः ? यनि. शोधः (तु. आपश्रौ. प्रभृ.) । l) = बौपश- (तु. वैप २, ३ खं.) । m) विप. (उपश-शब्देनोक्त- ?) शङ्क- । n) वैप १ द. ।

माश्रौ ५, २, १२, २; ११; वाश्रौ
३, २, ६, २; २२; हिश्रौ ९, ८,
२९; ३०; -यस्य बौश्रौ २३,
१४ : ४; ७; -यात् बौश्रौ १५,
१५ : ११; -याम् काश्रौ १६,
४, ७; १७, ५, ४; २६, १, २२; ७,
१६; -याय माश्रौ ५, २, १२,
१८; वाश्रौ ३, २, ६, ३६; -ये
आपश्रौ १४, ७, १; २१, १४, १२;
बौश्रौ १५, २३ : १७; १७, १४ :
११; वाश्रौ ३, २, ५, ५७;
हिश्रौ ९, ८, ३५; -यौ बौश्रौ ९,
५ : २५; १५ : १; वाधूश्रौ ३,
८२ : १; वैश्रौ १३, ८ : ९; हिश्रौ
२४, २, १०.

औपशय^१ -यः वाधूश्रौ ३,
७६ : २५; -यम् बौश्रौ ७, १८ :
३; १९ : ४; २० : ११; ८,
८ : ३०; ९ : १३; २५, १३ :
१६^२; -ये बौश्रौ ७, १२ : १९;
३६; ४९.

उपशय-द्वादश^३ -शान् बौश्रौ
१७, ११ : २.

उपशय-पातीवत- -तौ हिश्रौ
९, ८, ४.

उप-शाय- पा ३, ३, ३९.

उप-शायिन्- -यी काश्रौ ४, १०,
१६.

उप-शीव(र>)री^४ - ऋश्रौ आपश्रौ
१७, ५, १६^३; माश्रौ ६, २, ३, ४^३;
वाश्रौ २, २, २, १०; वैश्रौ १८,
२१ : १५; १८; हिश्रौ ११, ८,
१०^३; -रीः आपश्रौ १७, ५,
१६; वैश्रौ १८, २१ : १९; हिश्रौ
११, ८, १०.

उपशीवर्यु(री-उ)पघान- नम्
वैश्रौ १९, ५ : २६.

उप/शीय्, उपशीयते बौश्रौ १८,
४५ : ३८; उपशीयन्ते बौश्रौ
१८, ४५ : ४२; ४५.

उप-शुन- पा ५, ४, ७७.

उप/शुम्, उपशोभयेत् अप १०, १,
११; २४, १, ७.

उपशुरसृपेशुक्लौसप्तमूनमोदनः
अप १, ३४, २.

उप/शुप्, उपशुव्यति बौश्रौ १४, ५ :
५०.

उपशोषयेत् आपध २, १०, १६ :
हिध २, ४, १६.

उप-शुष्क- -कः आपश्रौ ९, २०, ७;
वैश्रौ २०, ३९ : ८.

उप/श्रु, श्रु, उप-श्रवत् शाश्रौ ८,
२५, १^१; ऋउपश्रुत आश्रौ ८,
३, १०; शाश्रौ १२, १४, १;
वैताश्रौ ३२, १९.

उपशृण्वन्ति बौश्रौ २४, २५ :
१९; ऋउप...शृणवत् आपश्रौ
५, १७, ४; हिश्रौ ३, ४, ४८;

ऋउप(शृण्वन्तु) श्रुअ ३, २३९;
साअ २, १४५; उपो(प+उ)...

शृणुहि>ही आश्रौ ६, २, ४;
शाश्रौ ३, १७, २; दाश्रौ १३, २,
७; लाश्रौ ५, २, १०; ऋउपो

(शृणुहि>ही) ऋअ २, १, ८२;
उपाशृणोः आपश्रौ ५, २, ४^१;

उपशृणुयात् माश्रौ २, ३, २,
१४; वैश्रौ १५, ६ : ४; हिश्रौ

८, १, ६२; उपशृणुयुः आपश्रौ
९, ११, १७^१; १२, ५, ५.

उपशुभाष वाधूश्रौ ३, ९४ : ८.

उप-शृणवत्- ण्वतः गौघ १२, ४;
-ऋण्वते आश्रौ ५, १५, २३;
शाश्रौ ८, १७, ३^१; आपश्रौ २०,
१, १७^१; बौश्रौ १५, ३ : ८^१.

ऋउप-श्रुति- -तिः पाय १, १६,
२३; आमिगृ २, १, ३ : १४;
हिगृ २, ३, ७; जैगृ १, ८ : १६;
-ती^६ आश्रौ १, ९, १; शाश्रौ
१, १४, ३; -स्या वैताश्रौ ८, ७.
उप-श्रुत्य आपश्रौ ९, १२, ९; बौश्रौ
२४, ७ : १०-१२.

ऋउप-श्रोतृ- -ता^१ आपश्रौ ४, ९,
६; भाश्रौ ४, १३, १; हिश्रौ ६,
३, २; आमिगृ ३, १, २ : १७;
२, ३ : ६; आपध २, ६, २; बौघ
२, ८, १२; हिध २, २, २; -तारम्
वैताश्रौ १८, १२; -त्रे^१ शाश्रौ
१, ४, ५; आपश्रौ २४, ११, २;
बौश्रौ ३, २१ : १२; वैताश्रौ
१८, १२.

उप/श्रम्, उपश्राम्यति कौसू ४१, २;
४८, २०; उपश्राम्येत कौसू
१३९, १३.

उप/श्रि, उपश्रयति काश्रौ २६, ६,
१२; उपश्रये जैश्रौ १७ : १६^१;
ऋउप...श्रयन्ताम् आमिगृ ३,
८, २ : ३६; बौपि १, १५ :
४३.

उप-श्रित- -नानि काश्रौ २६, ६,
१८.

उपश्रित-प्रहरण- णम् काश्रौ
२६, ६, २१.

उप/श्रिउष्, उपशिक्षेत् बौश्रौ १८,
४६ : ११.

उप/श्वस्, उपश्वसवति बौश्रौ १५,

a) स्वार्थे ञ् प्र. । b) विप. । वस. । c) वैप १ द्र. । d) सप्र. वाउ १०, ६ अनुपसृष्टः पाठ इति । e) ञ्पश्च इति पाठः ? यनि. शोचः (द्र. आश्रौ. BC. च) । f) पामेः वैप १, ९४२ g द्र. । g) पामे. वैप १, ९४२ i द्र. । h) पामे. पृ १६८ p, ६९० h द्र. ।

२४ : ९; ऋउपश्वासय बौश्री
१५, २४ : ९; वैतुश्री ३४,
११; आगृ ३, १२, १७; कौसू
१६, १; अप १७, २, ११; अत्र
६, १२६; या ९, १३; उप
(श्वासय) बृदे ५.११२५.
उप-श्वस^१ - से कौसू ६१, २९५.
उप-पुत्- उप ✓ स्तु द्र.
ऋउपस्^२ - पसः अप ४८, ११६;
-पसि बौश्री ९, ७ : ४; अप
४८, ११५; निघ ४, ३; या ६,
६४.
उप-सं ✓ यम् > उपसं-यम्य माश्री
१, १, २, १० × ×.
उप-सं ✓ युज् > उपसं-योग- गः
पावा ४, २, २१.
उप-सं ✓ वद् > उपसं-वाद- > ष्वा
(द-आ)शङ्का- -ङ्कयोः पा ३, ४, ८.
उप-सं ✓ विश्, उपसं-विशति काश्री
२०, ६, १४; हिश्री १४, ४, ६;
भागृ १, २० : १२; उपसं-विशेत्
शंघ ३८५.
उपसं-वेशयति आमिगृ ३, ५, ६ :
१२; बौगृ १, ६, २४; बौपि १,
४ : २८; कौसू ८०, ४४.
उपसं-विश्य आपश्री २०, १७, १७;
बौश्री १५, २९ : ३२; ३० : ६.
उपसं-वेशन- -नम् आमिगृ ३, ७,
३ : २०; बौगृ १, ५, २२; ७,
११ × ×; बौपि.
उपसं-वेद्य कौगृ ५, ३, ६.
उप-सं ✓ व्ये, ऋउपसं-व्ययस्व^३ आपसं
२, २, ७; आमिगृ १, १, २ : ३२;
५, १ : २४; कागृ ४१, ७;
बौगृ २, ५, १२; भागृ १, ५ :
१८; १३ : ८; हिगृ १, ४, २.

उप-सं ✓ शिस्, उपसं-शीसति शाश्री
१७, ८, २.
उपसं-शस्य आश्री ८, ८, १; १२,
२०; १०, १०, ४ × ×.
उप-सं ✓ श्रि, उपसं-श्रयध्वम् बौश्री
११, १० : ३५.
उप-सं ✓ श्रु > उपसं-श्रुत्य हिपि
२२ : ८.
उप-सं ✓ सृप्, उपसं-सर्पति बौश्री
१७, ३५ : २.
उप-सं ✓ स्पृश् > उपसं-स्पृश्य आमिगृ
१, ६, १ : २९.
उपसं-स्पृष्ट- -ष्टे बौश्री ७, २ : ९.
उप-सं ✓ हन् > उपसं-हत्य बौश्री
२०, २६ : १४.
उप-सं ✓ ह्, उपसं-हरति काशु ३, १;
तैप्रा २, १८; ३२; उपसं-हरन्ति
आमिगृ ३, ८, १ : २४; बौपि १,
१५ : २; उपसं-हरेत् आपशु २,
९ × ×; काशु.
उपसं-हार^४ -रः तैप्रा २, ३१.
उपसं-ह्(त >)ता- -ता आपशु २,
१२; हिगृ १, ३२.
उपसं-हत-तर, रा- -रे तैप्रा २,
१६; १८; -रौ तैप्रा २, १४.
उपसं-हत्य आमिगृ ३, ५, ४ : ६ × ×;
बौपि.
उप-सं ✓ कुच् > उपसं-कुच्य वैश्री ६,
१२ : ४.
उप-सं ✓ क्रम्, उपसं-क्रामतः बौश्री
६, १६ : ९; २५ : ४; वैश्री १२,
२० : १२; उपसं-क्रामति बौश्री
१५, २० : ५.
ऋउपसं-क्रमे, उप(संक्रमे) कौसू
८९, १०.
उपसं-क्रमण- (> बौपसं- पा.)

पाग ५, १, ९७.
उपसं-क्रम्य गोगृ ३, ४, ३०.
उप-सं ✓ ख्या, उपसं-ख्यायते वाधुश्री
३, ७६ : १५; निसू ५, ११ :
२९; ७, ५ : ३३; पावा ४, ३,
१२१.
उपसं-ख्यान- -नम् पावा १, १, २९;
३६ × ×; ३, २, १३९^५; ५, १, ३९^६;
४७^७; -नात् पावा ८, २, ८८.
उपसं-ख्यान-ग्रहण- -णम् पावा
१, १, ३६.
उपसं-ख्याना(न-आ)नर्थक्य-
-क्यम् पावा १, १, २९.
उप-सं ✓ गच्छ्, गम्, उपसं-गच्छन्ते
बौश्री २, १४ : २; ७, १ : ५;
११, ९ : १०; १५, ३ : २;
१३ : १४; १८, १८ : ७; २० :
११.
उपसं-गम्य अप ६९, १, १.
उप-सं ✓ गृह्, ग्रह्, उपसं-गृहीते
हिश्री ५, ४, ६०; ६७^८; उप-
सं-गृह्णाति बौश्री ६, १९ : १९;
२१ : २०; उपसं-गृहीयात् बौश्री
२५, १७ : १८; माश्री.
उपसं-जिष्ट्नेत् आपध १, ८, १९;
हिघ १, २, १०७.
उपसं-गृह्णत्- -ह्णत् वैध २, १०, ७.
उपसं-गृह्ण आश्री ८, १४, १४;
आपश्री; हिघ २, १, ८७^९.
उपसं-ग्रहण- -णम् आपध १, ५,
१८; १०, १७; १४, ९; हिघ १,
२, १९; ३, ४४; ४, ४१; गौघ
२, ४०; ६, ८; -णात् आपध १,
७, २७; हिघ १, २, ८४; -जे
बौगृ २, ११, ४८.
उपसं-ग्राहम् बौश्री ६, १३ : ८;

a) वैप १ द्र. । b) वैप १, ९४३ b द्र. । c) पाभे. वैप १, ९३५ j द्र. । d) = संश्लेष-विशेष-
(तु. भाष्यम्) । e) तु. पाका. । f) सपा. आपध २, ५, ६ अनुगृह्य इति पाभे. ।

वैश्रौ १२, १७ : ३.

उपसं-ग्राह- -ह्यः आपघ १ ५, २०; हिघ १, २, २१; -ह्याः आपघ १, ७, १३; १४, ७; हिघ १, २, ७०; ४, ४०; -ह्यौ आपघ १, ५, २२; हिघ १, २, २३.

उप ✓ सच्, उपसचन्ते आश्रौ ३, ७, ९१.

उप ✓ सज्, > उप-सज्य आपश्रौ ७, १७, ६; बौश्रौ ४, ६ : ३९; ११, ४ : २३; १५, २९ : १९; हिश्रौ ४, ४, ३९.

उप-सं ✓ चक्ष्, उपसंचक्षीत निस् ७, ७ : ३१.

उप-सं ✓ चर, उपसंचारयेत् निस् ६, ४ : १४.

उपसं-चार^० -रः गोगृ ४, २, ७.

उपसं-चारम् लाश्रौ १०, १२, १५.

उप ✓ सद, ऋउप...सदेयम् आपश्रौ १, १२, १४; माश्रौ १, १२, ७; हिश्रौ १, ३, ३५; उप-सदेम कौस् ८९, १२१; ऋउप...सदेम माश्रौ १, १, ३, १८; वाधूश्रौ ३, ४८ : १; वाश्रौ १, २, २, १९; उप- (सदेम) माशि ५९१.

उपसीदति शाश्रौ ५, १०, ७; काश्रौ; उपसीदामि आपश्रौ १, १२, १४१; माश्रौ १, १, ३, १८; उपसीदन् आश्रौ ४, ७, ४१; ऋउपसीदतु आपश्रौ १५, ९, ७; बौश्रौ ९, ९ : १३; माश्रौ ११, ९, ९; माश्रौ ४, ३, १०; वैश्रौ १३, ११ : ११; हिश्रौ २४, ४, ३; उप-सीदस्व वाश्रौ १, ६, ७, २११; ऋउपसीद काश्रौ ६, ९, ७; आपश्रौ ७, २६, ८; बौश्रौ ४,

१० : २××; भाश्रौ; ऋउपसीदत आश्रौ ४, ७, ४; शाश्रौ ५, १०, ७; उपासीदन् वाधूश्रौ ४, १०३ : ५१; १५; उपसीदेत् निस् ५, ३ : ४; द्रागृ २, ४, २१; आपघ १, ६, १२; २४; हिघ १, २, ३५; उपसीदेम या १२, ३९.

ऋउपसेदुः आपश्रौ ६, २२, १; बौश्रौ २५, ९ : १; अप्राय १, ३; या ४, ३; ऋउपसेदिम > मा बौश्रौ १, १२ : २९; ६, ३ : १४; वाश्रौ १, ३, २, २०; या १२, ३९६; शुप्रा ३, ९७; उप-सदत् आगृ २, २, ३१^०; उपा-सदम् वाधूश्रौ ३, ४७ : १.

उपसादयति शाश्रौ २, ९, ६; आपश्रौ; उपसादयन्ति आपश्रौ २१, ९, १२; बौश्रौ; उपसादय काश्रौ २, ६, २६१; आपश्रौ; उपसादयतम् बौश्रौ ५, ५ : ३१; उपसादयेत् आपश्रौ १, ५, ४××; बौश्रौ. उप...असीषदन् बौश्रौ ७, १५; ३२.

उप-सद्^१ - पाग ५, २, ६१; -सत् आश्रौ ४, ८, १; काश्रौ ८, २, १५; १६; भाश्रौ १२, ३, २४; माश्रौ २, २, १, ४९; लाश्रौ ५, ६, १०; शुअ ४, १७५; -सत्सु आश्रौ ४, ५, ५; ११, ६, ३; काश्रौ ३, ५, ११; ४, ६, १५; १७, ७, ३; २४, ३, १०; आपश्रौ; -सदः आश्रौ ४, २, १७; ८, ११; १०, २, २४; १२, ४, ४; शाश्रौ १०, १, ३; १३, २४, २; २५, २××; काश्रौ; -सदम् काश्रौ ८, २, ३३; आपश्रौ

११, ३, १२; बौश्रौ ६, २१ : १८-२५, १० : २३; भाश्रौ; -सदा शाश्रौ ५, १०, ३६; काश्रौ २६, २, १; आपश्रौ ११, २, ५; बौश्रौ ९, १७ : ३××; -सदाम् आश्रौ १२, ८, ३०; आपश्रौ १७, २६, ४; १८, २०, १९; २०; बौश्रौ १२, १७ : २०; २२; २१, १३ : २५; २५, २२ : ६××; भाश्रौ; -सदि आश्रौ ४, ८, १८; शाश्रौ ३, १६, २११; काश्रौ २२, ८, १६; बौश्रौ १६, २ : ११; १२; १३ : ११××; -सदिऽ-सदि शाश्रौ ५, ८, ६; -सदे वाधूश्रौ ४, ५८ : ४; -सदोः जैश्रौका ६५; -सदौ काश्रौ ८, ३, १६; बौश्रौ १२, १७ : २१; १९, ५ : ३१; माश्रौ २, २, १, ४३; -सद्भिः आपश्रौ २३, १०, ८; १२, ७; बौश्रौ १२, ७ : ६; १७, २७ : ७; २५, १० : १०; २२; २६, २७ : ८; माश्रौ २, २, १, ४४; वाधूश्रौ ४, ४० : ३; वाश्रौ २, २, ५, २४; हिश्रौ १८, ४, ३; -सद्भ्यः आश्रौ १२, ४, ११; आपश्रौ १८, १, ९; माश्रौ ६, १, ५, २५; वाश्रौ २, १, ४, ३१; वैश्रौ १७, ७ : ९; हिश्रौ १३, १, ८; द्राश्रौ १, ३, १६; लाश्रौ १, ३, १६; निस् १०, ११ : ३.

बौपसद, दा^० - पा ५, २, ६१; -दः वैश्रौ १२, २४ : ४; हिश्रौ १०, ३, ३८; कागृ ४७, १; -दम् आश्रौ १२, ८, १३; माश्रौ २, २, २, ६, २, ४, २१; वैश्रौ १४, ३ : ७; हिश्रौ १३, ७, ८; -दस्य

a) °ज्ज इति पाठः ? यनि. शोघः । b) = गमनागमन-मार्ग- [= द्वार-] । गस. । c) सपा. पागृ २, १६, ३ व्यगात् इति पाठे. । d) = इष्टि-, गृह- प्रमृ. । e) स्वार्थावर्थेषु ङणि प्र. स्त्री. कीबभाव आर्षः ।

बौश्रौ २१, १३ : २२; २५, १६ : ३; -दा- बौश्रौ २६, २१ : १; ३० : १५^०; निस् १०, ९ : ३; -दान् माश्रौ २, २, १, ५०; -दानाम् बौश्रौ २२, २० : १४^{१०}; २३, १२ : १२; -दानि बौश्रौ २५, ७ : ७; -दाम् बौश्रौ २२, २० : १४; -दायाम् बौश्रौ ६, ३२ : ११; ३३ : ७; ७, ३ : २७; ८, २१ : ४; १७, १५ : ३; २५, २५ : ८; -द्रे काण् ५३, १; -द्रेः आपश्रौ १५, १८, १६; भाश्रौ ११, १९, ७.
उपसत्-कल्प- -ल्पः वैश्रौ १४, १ : १.
उपसत्-प्रयोग- -गः माश्रौ ४, २, १; -नेषु आपश्रौ २२, ९, २१.
उपसद्-अन्त- -न्ते काश्रौ १५, ८, १५; १८, ३, ९; २६, ७, १; लाश्रौ १०, ११, २; ६; -न्तेषु द्राश्रौ, लाश्रौ १, ३, १५.
उपसद्-अन्तराल- -लेषु काश्रौसं २७ : ४; १५.
उपसद्-इष्टि- -ष्टिः द्राश्रौ १४, २, ९.
उपसद्-देवता-हविस- -वीषि काश्रौ १५, ८, १५.
उपसद्-धो (<हो)म- -मे द्राश्रौ १४, २, ११; लाश्रौ ५, ६, ११.
उपसद्-न्याय- -येन बौध ३, १०, १२.
उपसद्-मन्त्र- -त्रेण आपश्रौ १६, ३५, ७; १७, २६, ४; २१,

४, १०; २३, ११, ३; वैश्रौ १९, १ : १६^{१०}.
उप-सदन- -नम् गौध १, ६३.
उप-सद्य कौसू १४०, १४; अप १९, ३, ३.
†उप-सद्य^१- -द्यः शांश्रौ ६, १२, २२; आपश्रौ १२, १७, १०; वैश्रौ १५, २० : ४; -घाय आश्रौ ४, ८, ५; १३, ७; शांश्रौ ५, ११, १; ११; ६, ४, १, ऋञ् २, ७, १५; -द्ये कौगृ ३, ४, ५; शांश्रु ३, ७, ३; कौसू ८९, १३.
†उप-सद्न^०- -द्वने आश्रौ २, ५, ९; आपश्रौ ६, २५, ७; भाश्रौ ६, ५, ६; हिश्रौ ६, ७, ७.
उप-सन्न, न्ना- -न्नाम् काश्रौ २५, २, १९; आपश्रौ ५, १९, २; ६, २९, १२; ९, ६, ५, ६; भाश्रौ; -न्ना हिश्रौ १५, २, २; -न्नाः हिश्रौ १४, २, १३; -न्नाम् हिश्रौ १, ३, ३५; -न्नाय पाण् २, ३, ३; अप २५, १, २; या २, ३; -न्ने आश्रौ ३, १०, १०; वाश्रौ १, ४, ४, ११; वैश्रौ १, १४ : १८; हिश्रौ ३, ८, ७८; गोगृ ३, ३, २६; अप ४६, ७, १.
उप-सादन- -ने बौश्रौ २०, ९ : ११; २१, १४ : १४.
उपसादन-प्रभृति- -ति बौश्रौ २४, ३१ : ९.
उपसादनिक^१- -कम् वैगृ ५, ४ : ३७.
उपसादनीय- -यम् वैश्रौ ११, १० : ४; आमिण्.

उप-सादम् शांश्रौ २, ८, १२.
उप-सादित- (>उपसादित्-पा.) पाण् ५, २, ८८.
उप-साद्य आश्रौ २, ३, १५; ३, १२, ४; शांश्रौ.
उप-साद्यमान, ना- -नम् भाश्रौ ४, ७, ४; -ना बौगृ ४, १, ९-११.
उप-सीदत्- -दन् कौसू १०, ९; -दन्तम् भाश्रौ १, १२, ७.
उप-सं ✓तन्, उपसंतनोति वैताश्रौ २०, २१; ३१, ४; उपसंतनुयात् आश्रौ १, ६, ३; ९, १; २, १६, ५ x x.
उपसं-तान- -नः आश्रौ ५, ९, ३; १४; १८; ८, १२, २१.
उप-सं ✓घा, उपसंद्घाति - आपश्रौ २४, ११, ५; बौश्रौ ३, २७ : १९; वाश्रौ १, १, १, ४८; उपसंद्-ध्यात् बौश्रौ २४, १७ : ३; ऋप्रा १०, २.
उपसं-धाय शांश्रौ १, ४, ७; १८, १, १५; २०, १-४.
उप-सं ✓नञ् (व्याप्तौ), †उप... सम्... आनट् आपश्रौ ५, १७, ४६; हिश्रौ ३, ४, ४८^६; आपमं २, ३, २.
उप-सं ✓नह्, उप-संनहति आपश्रौ ११, १६, ४ x x; भाश्रौ; उपसंनह्येत् आपश्रौ १६, २०, ३.
उपसं-नह- -हः काश्रौ ५, १, २०; अप्राय ३, १^{१६}.
उपसं-नह्य आपश्रौ १६, २०, ४; भाश्रौ.
उप-सम् ✓अञ् (व्याप्तौ), उप... सम्... अह्याम् आपमं २, २, २^{१६}.

a) = इष्टि- l. b) °दाम् इति पाठः ? यनि. शोघः (तु. संस्कर्तुः टि.) । c) °सद्न^० इति पाठः ? यनि. शोघः (तु. आपश्रौ.) । d) वैप १ द्र. । e) गस. वनिबन्तम् । f) विप. । तदस्त्यस्यार्थे ङ् प्र. । g) पाभे. वैप १, ९, ४४ f द्र. । h) पूर्वेण संधिर्षः (तु. सप्र. मा ८, ५६ [आसन्नाम्] आसन्नः इति, तै ४, ४, ९, १ काठ ३४, १४ उपनहः इति च पाभे.) ।

उप-सम्/अस्(क्षिपणे), उपसम-
स्यति आपश्चौ १,१९,५; बौश्रौ
१,१९ : ३५; ३,२० : २; वैश्रौ
९, ५ : १२; हिश्रौ १, ५, ४४;
५, ४, ६३; मागृ १, १२, ४;
उपसमस्येत् आश्रौ ७, ३, १९;
आपश्रौ ८, १४, १२.

उपसम्-अस्य आश्रौ ८, ८, ७; शाश्रौ.

उपसम्-भासम् बौश्रौ ९, ८ : १०.

उप-सम्-आ/कृ, उपसमाकुर्वति
हिश्रौ १७, ६, ४२.

उप-सम्-आ/धा, उपसमादधाति
आपश्रौ ८, १३, ८××; बौश्रौ;

उपसमादध्यात् वाश्रौ ३, ७, ८.

उपसमा-धान- -नम् कागृ ४७, ३;
-नेन बौश्रौ २४, ३१ : ५.

उपसमाधाना(न-आ)दि- -दि
आपगृ १४, १०; १६, ५; १९, १३.

उपसमाधानाद्या(दि-आ)-

ज्यभागा(ग-अ)न्त- -न्ते

आपगृ ४, १०; ६, ४; १०; ७, ३;

८, १०; ९, ४; १०, ९; १२, ३; १४,

२; १७, १२; २३, ९; भागृ ३,

४ : २; ५ : ३; ७ : २; ८ : ३.

उपसमा-धाय आश्रौ २, ६, ४; १२;
शाश्रौ.

उपसमा-धास्यत्- -स्यन् आपध २,
१, १३; हिघ २, १, १३.

उपसमा-हित- -तः गोगृ २, १, ११;
३, २; ९, २; १०, १४; -तस्य

जैगृ १, १ : १६; -ते कौसू ६८,

३७; अप २४, २, २; -तेषु बौश्रौ

२३, १ : २०.

उप-सम्-आ/नी> ँमा-नीत,ता-
-ताः आश्रौ १०, ७, १-७; ८; ९.

उप-सम्-आ/रभ्, उपसमारभन्ते
कौसू १३९, ९.

उप-सम्-आ/हृ> ँमा-हार्य- -यम्
कौसू ८७, २५; ९२, २३.

उपसमा-हृत्य आपश्रौ २२, १६, ११;
हिश्रौ.

उप-सम्/इ, उपसमियाय बौश्रौ
१८, ४६ : १९.

उप-सम्/इष्, ण्ष्, उपसमिन्डे
आपश्रौ १, १, ४; ४, १५, ५१;

१६, ११, १; १२, १३; बौश्रौ २,

१८ : ३९; ३, ७ : ९××; उप-

समिन्ध्यात् आपश्रौ ९, १०, ९;

आपध २, १, १३; उपसमिन्धीरन्

बौश्रौ २१, ४ : १७.

उपसम्-इढ- -ढम् बौगृ ३, ८, ३;

-ढेषु आपश्रौ ९, १२, १०; वैश्रौ

२०, २६ : ५.

उपसम्-इध्य आपश्रौ ५, ११, ६××;

भाश्रौ.

उपसम्-इन्धन- -नम् बौश्रौ २३,

१ : ४०; २७, ११ : ७; -ने

बौश्रौ २१, ४ : १७.

उपसमिन्धन-वेला- -लायाम्

बौश्रौ ६, ६ : ९.

उपसम्-एध- -धेन वाधूश्रौ ३, ९ :

२१.

उप-सम्/ऊह्(प्रापणे), उप-
समूहति आपश्रौ १२, ९, ६;

बौश्रौ ६, १४ : १८; वैश्रौ १५,

११ : ७; हिश्रौ ७, २, ४३;

उपसमूहति बौश्रौ २, ९ : २२.

उपसम्-ऊहन- -नात् हिश्रौ ८, ३, ३.

उपसम्-ऊह्य आपश्रौ १०, २४, १४;

१८, ९, १२; भाश्रौ १०, १६,

११; वैश्रौ १२, १८ : १; भागृ

२, ४ : १५

उप-समे(स-आ/इ), उपसमायन्ति
बौश्रौ १८, २५ : ५; वाधूश्रौ ४,

२६ : ६; हिश्रौ १७, २, ३८-
उपसमे(मा-इ)त- -तात् गोगृ ३, २,

४६; जैगृ १, १४ : १३; -तेषु

बौश्रौ १३, २० : ११; १८, २० : १०

उपसमे(मा-इ)स्य हिश्रौ १७, २, १८.

उप-सं/पद् > ँस-पद्- -पद् अप
७१, ६, ४; -ने गौध १४, २१.

उप-सं-प्र/या, उपसंप्रयात् शुभा ६,
१०†^b.

उप-सं-प्रा(प्र/आ)प् > प्रा(प्र-आ)-
सि- -सिः मीसू ६, २, १९.

उप-सं/बष्, ण्ष् > ँस-ब(द्व>)-
द्वा- -द्वा आपश्रौ २०, ३, १७;

बौश्रौ १५, ६ : ७; हिश्रौ १४, १,

३७.

उप-सं/भिद्, †उपसंभिन्धि द्राश्रौ
१३, १, ४; लाश्रौ ५, १, ४.

उप-सं/भृ, उपसंभरन्ति निसू ५,
१० : ३.

उप-सर- प्रभृ. उप/सृ द्र.

उप-सर्ग- , उप-सर्जन- प्रभृ. उप
/सृज् द्र.

उप-सर्पण- प्रभृ. उप/सृप् द्र.

उप-सर्था- उप/सृ द्र.

उपसंस्वात्रेय^c- -यः शुभ्र ४, १७५.

उप/साध्, उपसाधयेरन् जैगृ २, १ : २.

उप/सिच्, ञ्च्, उपसिञ्चति काश्रौ

२, ७, १७; १९, ३, २१; आपश्रौ

८, २, ९; बौश्रौ ४, ९ : ६; १०;

११; १३; माश्रौ १, ८, ५, २०;

वाश्रौ १, ३, ३, ५; वैश्रौ ८, ५ :

६; १०, १९ : ७; कौसू १७, १६;

६२, १८; २०; उपसिञ्चतम् या

९, ४१†; उपसिञ्चेत् काश्रौ २५,

२, २८; ११, २२; बौश्रौ २५,

३२ : २१.

उप-सिक्त- -क्तम् वैश्रौ १०, १९ :

a) विप. । कस. > बस. । b) पाठे. वैप १, ९४४ j द्र. । c) = ऋषि-विशेष- । व्यु. ? ।

११; हिध २, २, २५^a; -क्ते पा ४, ४, २६.
 उप-सिञ्च्य काश्रौ ६, ३, ११; आपश्रौ.
 उप-सेचन- नम् पाठ ३, ३, ११;
 -नात् काश्रौ ८, ५, ३१; -नेन
 बाधूश्रौ ४, ३० : १७.
 उप√सिञ्, उपसेच माठ २, ११,
 १४^b.
 उपसीदत्- उप√सद् द्र.
 उप-सिद्ध- -द्धम् गोठ १, ९, ४.
 उप-सीर- (> औपसीर्य- पावा.)
 पावाग ४, ३, ५८.
 उप√सृ, उपासरन् माश्रौ १, ६, २,
 १७^c.
 उपससार शाश्रौ १५, १८, १;
 २२, १^d.
 उप-सर- पा ३, ३, ७१.
 उप-सरण- -णानि निस् २, ४: ३१.
 उप-सरिष्यत्- -ष्यन् शश्रौ ६,
 ८, ९.
 उप-सर्तव्य- -व्यम् या ३, २.
 उप-सर्था- पा ३, १, १०४.
 उप-सृत- -तः बौश्रौ १४, २२ :
 २४; -तम् बौश्रौ १८, ४८ :
 १६.
 उप√सृञ्, उपसृजति आपश्रौ १,
 १२, ११; १५, २, ६; बौश्रौ;
 उपसृजन्ति शाश्रौ २, ८, १;
 द्राश्रौ २, २, २९; लाश्रौ १, ६,
 २७; ऋउपसृजामि^e आपश्रौ १,
 १२, ११; माश्रौ १, १, ३, १७;
 वैश्रौ ३, ७ : ४; ऋउपसृज आपश्रौ
 १६, २, ११; बौश्रौ ७, ६ : ७, ८,
 ९ : ६; १०, ३ : १; हिश्रौ ११,

१, २४; उप...सृज आपश्रौ ७,
 ६, ७^f; उपसृजत कौस् ६२,
 २१^g; उपसृजेत् आश्रौ ६, ३,
 १५; आपश्रौ.
 ऋउप...सृजि आपश्रौ १६,
 ७, ४; माश्रौ ६, १, ३, ३; वाश्रौ
 २, १, २, ७; वैश्रौ १८, ४ : २०;
 हिश्रौ ११, २, २; उप (असृजि)
 ऋञ् २, २, ३५^h; वृदे ४, ९०;
 उपसृजम्^d आश्रौ ८, १३, २;
 हिश्रौ १६, ४, १२; कौठ ३, ६,
 २; शांठ ३, ११, ४.
 उप-सर्ग^e- पाग ५, १, १०१; -र्गः
 आपश्रौ १२, १०, १०; कौठ;
 या ३, १६; ५, ५; ६, १; २२;
 पावा १, ३, १; ३, १, १२; ८, ३,
 ६५; ४, १४; -र्गस्य ऋत ५, २,
 ६; अप्रा; पा ६, ३, १२१; ८, २,
 १९; पावा ३, १, ७; १२: ८, २,
 १९; -र्गाः बौठ ३, ५, ८ⁱ; वृदे;
 या १, ३; पा १, ४, ५९;
 -र्गणाम् ऋप्रा १२, २२; -र्गात्
 आपश्रौ १२, १२, ३; अप; पा १,
 ३, ३०; ५, १, ११८; ४, ८५;
 ११९; ६, १, ११; २, १७७; ७,
 १, ६७; ३, २३; ४, २३; ४७;
 ८, ३, ६५; ४, १४; २८;
 ५४; पावा १, ३, २९; ४,
 ३, १३२; ६, १, ९०; १२६; २,
 १७७; ७, ४, २४; ४७; ८, ३,
 ६५; ११४; -र्गान् वृद २, १५;
 -र्गैः द्राठ ३, २, ३०; शुप्रा ६, २;
 पा १, ४, ६५; २, ३, ५९; ३, १,
 १३६; २, ६१; ९९; १४७; ३,

१२; २२; ५९; ९२; १०६; पावा
 ३, १, १३५; -र्गेण अप्रा २, ३,
 २७; ३, २, ६; ७; शौच ४, ३७;
 -र्गेषु भाशि ११; -र्गौ लुस् १,
 ७ : १५.
 औपसर्गिक- पा ५, १,
 १०१.
 उपसर्ग-कारित- -तः ऋप्रा ११,
 ९.
 उपसर्ग-ग्रहण- -णम् पावा ८, १,
 ५७.
 उपसर्ग-स्व- -स्वम् पावा १, ४,
 ६५.
 उपसर्ग-निपात- -ताः या १,
 १; १२; १३, ९.
 उपसर्ग-नि(सृ>)ष-पूर्व- -वंः
 तैप्रा ६, ४.
 उपसर्ग-पर- -रः याशि २, ५७;
 -रौ याशि २, ५४.
 उपसर्ग-पूर्व- -र्वम् अप्रा १, १,
 १२; १३; पा ६, २, ११०; -र्वे
 तैप्रा १०, ९.
 उपसर्ग-पूर्व-नियम- -मे
 पावा १, ३, ६०.
 उपसर्ग-पूर्व-नियम(म-अ)
 र्थ- -र्थम् पावा ७, ३, ६६.
 उपसर्ग-प्रत्यय-प्रतिषेध- -धः
 पावा १, ३, १.
 उपसर्ग-भय- -ये अप३१, ४, ५.
 उपसर्ग-वर्जित- -तः पि ४, ४.
 उपसर्ग-विभक्ति-स्वर-प्रतिरूप-
 क- -काः पाग १, ४, ५७.
 उपसर्ग-व्यपेत- -तम् पा ८, १,
 ३८.

(a) सपा. पञ्चसोपसिक्तम् <>पयउपसेचनम् इति पाभे. । b) पाभे. वैप १ परि. अुपवृद्धव शौ ३,
 १२, ६ टि. द्र. । c) पाभे. वैप २, ३खं. उपसृष्टा माश १, ७, १, १० टि. द्र. । d) लुङि उपु१ (वृ. Old.) ।
 पाभे. वैप १ परि. उपसृजन् मा ८, ५१ टि. द्र. । e) = शाब्दिक-संज्ञा- [पा. प्रभृ.], पिशाचादिबाधा-, प्रारम्भ-
 प्रभृ. । गस. । f) = रोग-विशेष- ।

उपसर्गो-सदृश- -शानि अप्रा
१,३,६.
उपसर्गा(र्ग-अ)क्षर- -राणाम्
निसू २,१२ : ३१; -राणि निसू
२,१२ : २०^३; ३,४:३१; -रेषु
निसू २,१२ : २९.
उपसर्गा(र्ग-अ)भाव- -वात्
पावा ८,४,१४.
उपसर्गौ(र्ग-ए)कदेश-लोप-
-पात् शुप्रा ५,४२.
उप-सर्गिन्- -र्गिणः द्राश्रौ ८,४,
२५; लाश्रौ ४,८,२१.
उप-सर्जन^१- -नः मीसू १०,५,४;
-नम् पा १,२, ४३; २,२, ३०;
-नस्य पा १,२, ४८; ६,३,८२;
पावा २, २, ३०; ६, ३, ८१;
-नात् पा ४,१, ५४; -नै माश्रौ
४, ३, ६; कौसू १४१, २२;
-नैः आमिगृ २,४,६ : ३८.
उपसर्जनी- -नीः काश्रौ २,
५, १; १२; ८, १, ८; -न्याम्
शाश्रौ १८,२१,१.
उपसर्जन-ग्रहण- -णम् पावा ४,
१,५४.
उपसर्जन-स्व- -स्वे पावा १, २,
४३.
उपसर्जन-दीर्घत्व- -स्वम् पावा
५,४,१५६.
उपसर्जन-प्रभृति- -ति माश्रौ
१,१,३,३९; २,३,४,१६.
उपसर्जन-प्रसिद्धि- -द्धिः पावा
२,१,५७.
उपसर्जन-विशेषण- -णम् पावा
२,१,१.

उपसर्जन-संज्ञा-प्रसङ्ग- -ङ्गः
पावा १,२,४३.
उपसर्जन-संनिपात- -ते पावा
१,४,८०.
उपसर्जन-समास- -से पावा ४,
१,३४; ८,२,६९.
उपसर्जन-ह्रस्वत्व- -त्वम् पावा
२,४,२६; -स्वे पावा १,२,४८.
उपसर्जना(न-अ)प्रसिद्धि- -द्धिः
पावा २,१,५७.
उपसर्जना(न-अ)र्थ- -र्थम् पावा
२,२,२४; ७,३,४७.
†उप-सृजत्- -जन्^२ काश्रौ १२, ४,
९; आपश्रौ १३,१९,५; २१,
९,१४; बौश्रौ १६,९ : ९; २६,
१४ : १४; माश्रौ २,५,४,२१;
हिश्रौ १०,५,२१; द्राश्रौ ९,३,
२३; लाश्रौ ३,७,८; शुअ १,
५३९.
उप-सृज्य आपश्रौ ६, ३, १०××;
काश्रौमं.
उप-सृज्यमा(न>)ना- -नायाम्
शाश्रौ ५,१०,४.
उप-सृष्ट,ष्टा- -ष्टः या १, १७; ४,
२३; -ष्टम् शाश्रौ १८,१, १२;
काश्रौ; -ष्टयोः पा १, ४, ३८;
-ष्टस्य हिश्रौ ८, ३, ७; -ष्टा
शाश्रौ ३,२०,१; आपश्रौ; -ष्टाः
शाश्रौ १,१७, ६; कागृ ५८, ६;
-†ष्टाम् काश्रौ ४, २, १८;
आपश्रौ; -ष्टायाम् जैश्रौ २३ :
१०; जैश्रौका ५६; -ष्टासु शाश्रौ
१,१७,५; -ष्टे हिश्रौ ४,४,२७;
विध ७१, ६७; शौच ४, ३६;

-ष्टैः आश्रौ ८,४,२४.
उपसृष्ट-लक्षण^०- -णाः वैगृ ६७:
६.
उप√सृप्, उपसर्पति बौश्रौ ५,८ :
३८; वैश्रौ १२, २० : ४; हिश्रौ
७,३,१६; कौसू १३५, २; ११;
उपसर्पति शांगृ २,१६, ६; कप्र
२,१,१६; उपसर्पत् या ५,३१;
†उपसर्प आश्रौ ६, १०, १९;
आगृ ४, ५, ७; कौगृ ५, ६, १;
आमिगृ; उपसर्पत् आश्रौ ४,८,
३०; गोगृ ३,२,१५.
उप-सर्पण- -णम् कप्र ३,२,१.
उपसर्पणा(ण-अ)शक्ति- -क्तौ
काश्रौ २५,६,११.
उप-सृप्य बौश्रौ ६, २४ : २६; ३३;
७,६ : १८; ८,१ : २२.
†उप√सेच्, उपसेवताम् आपश्रौ १,
१२,८; हिश्रौ १,३,२९.
उप-सेवक^५- -कम् अप ६८,५,३.
उप-सेविन्- -विनः आज्यो १२,८.
उप-स्/कृ (करणे)^० >उप-स्कर^६-
-रः शंघ १३३; विध ५९,१९;
-रम् विध ४४,३६.
उप-स्/कृ^६
उप√स्तम्, स्म्, उपस्तम्नोति बौश्रौ
६,१६ : १५; माश्रौ १०, १९,
१०; माश्रौ २, १, ४,२६; ३७;
२,२,२३; हिश्रौ ७, ३,९; २४;
उपस्तम्नतः आपश्रौ १४,३३,५;
वैश्रौ २१, १७ : ११; हिश्रौ ७,
५,१४; १५,८,३९; उपस्तम्नोमि
आपश्रौ १४, ३१, ७^७; उपस्त-
म्नुयात् आपश्रौ १४, ३३, ४^७;

a) = शास्त्रीय-संज्ञा- [पा. प्रसू.], गौण- प्रसू. । गस. उप. कर्मणि ह्युट् प्र. । b) पाप्मे. वैप१, परि. उप-
सृजन् मा ८,५१ टि. द्र. । c) विप. । बस. । d) पूर्वैण संधिरार्धः । e) ऋत ४,५,८ पा ६, १,१३७-१३९
परांमृष्टः द्र. । f) = गृहोपकरण-विशेष- [कटाहादि-] । गस. उप. घः प्र. (पा ३,३,११८) । g) ऋत ४,६,३ पा ६,
१,१४०; १४१ परामृष्टः द्र. ।

वैश्रौ २१, १७ : १०; ११; हिश्रौ
१५, ७, ३८^२; अप्राय ६, १^३.
उपस्तम्नाति काश्रौ ७, ९, २२;
८, ४, ६; वैश्रौ १२, २० : ४.
उपस्तम्भयन्ति माश्रौ २, २, २,
१३.
उप-स्तम्भ्य आपश्रौ १०, २८, १; २९,
९^१; ११, ७, ३; वैश्रौ १२, १९:
२४.
उप-स्तम्भ्यमान- -नम् वैताश्रौ १५,
१२.
उप-स्तम्भ- -म्भाः अप २१, ५, २.
उप-स्तम्भन^२- -नः आपश्रौ १४,
३१, ७; -नम् काश्रौ ९, २, १८;
आपश्रौ ११, ११, ९; १३, ८; १२,
२, ४; ५; काठश्रौ २७; बौश्रौ
६, २६ : १५; २९ : ३×५; माश्रौ;
-नस्य काश्रौ २, ३, १४; माश्रौ २,
२, २, ३८; -नात् काठश्रौ २३;
बौश्रौ १२, ८ : ३; -ने आपश्रौ
१९, २७, ४; हिश्रौ २२, ६, १७.
उप-स्ति^३- पाग ४, ४, १२; -स्तिः
शुप्रा ५, ३०^१.
औपस्तिक- पा ४, ४, १२.
उप√स्तृ, उपस्तौति वैश्रौ ३, ७ :
१३; १५; उपस्तुमः या ८, ७;
उप...स्तुमः अश्र ३, १५^१;
†उप(स्तुमः) वैताश्रौ ६, ९; कौसू
७०, १३; उपस्तुहि बौपि १,
१५ : ७; या ६, २३^१; उप-
(स्तुहि) वृदे ५, ३८^१.
†उपस्तोषाम या ८, ७^१.
उप-स्तृत्^४- -स्तृत् ऋप्रा ५, ३०^१.
उप-स्तृत- -तः बौश्रौ १८, ४१ :

५^१; ऋअ २, १०, ११५; वृदे ८,
३९; साअ १, ६४.
उप-स्तृति- -तौ या ११, १२^१.
उप-स्तृत्यऽउपस्तृत्य माश्रौ ५, २,
९, ५.
उप-स्तृत्य- -स्यम् वैताश्रौ ६, १^१.
उप√स्तृ, स्तृ, उपस्तरति मागृ १,
९, १५.
उपस्तृणीते काश्रौ ६, ८, ८;
आपश्रौ; उपस्तृणाति आपश्रौ
१, १९, ४×५; बौश्रौ; †उपस्तृणते
आपश्रौ ४, ३, ६; माश्रौ ४, ५, ४;
हिश्रौ ६, १, ३९; उपस्तृणन्ति
शाश्रौ १६, ३, २५; २६^१; १२,
२०; १७, ६, ५; अश्र ९, ६^१;
†उपस्तृणीहि कौसू ६१, ४५;
७२, ४; उपस्तृणीत बौश्रौ २०,
१६ : ३४; २२, १० : १३;
उपस्तृणीथन कौसू ७८, २^१;
उपस्तृणीयात् हिश्रौ २, ३, ४.
उपास्तरीः कौसू ६१, ४६^१.
उप-स्तरण- -णम् बौश्रौ ७, ८ :
८^१; †८, २ : १८; ११ : ६;
१७, ३९ : २; २१, १८ : १३;
माश्रौ ४, ३, ४३^१; आमिगृ १,
३, १ : २; २, ४, १० : २६;
आपध २, ६, १५; -णानि कौसू
११, ३; ८; -णाय बौश्रौ १५,
१४ : ९; -णे बौश्रौ २०, १६ :
३३.
उपस्तरणा(ण-अ)भिघार^१- -रः
वाधृश्रौ ३, ३४ : ४.
उपस्तरणा(ण-अ)भिघारण-
-णम्^२ द्रागृ ३, ४, १२; -णयोः

मीसू १०, २, ३; -णानि भाश्रौ
७, २२, १२; -णाम्याम् बौश्रौ
८, २१ : ११; -णे काश्रौ ९, ९,
२२; आपश्रौ ३, २, ७; २४, ३,
१३; हिश्रौ २, २, २०; कौगृ १,
८, २२; आपगृ ७, ४; जैगृ १,
२४ : ४; -णैः माश्रौ ५, २, १,
३; ६, २, ५, २३; मागृ १, ११,
१२.
उपस्तरणा(ण-अ)भिघारण-प्रत्य-
भिघारण^३- -णम् कौगृ १, ५,
१३; शांगृ १, १३, १६.
?उपस्तरणाभिघारितौदुम्बया^४
आमिगृ ३, २, ५ : १४.
उपस्तरणा(ण-अ)वदान- -ने
आपगृ ७, ८.
उपस्तरणी(य>) या- -याः
बौगृ १, २, ३०.
उप-स्तार^१- -रः काठश्रौ १४.
उप-स्तिरे^२ आपमं १, ८, १^१.
उप-स्तीर्णा, र्णा- -र्णम् बौश्रौ ६, ६ :
२६; वाधृश्रौ ३, ३४ : ९; -र्णानि
बौश्रौ १५, १९ : १; -र्णाम्
बौगृ २, ७, १७; कौसू ६१, ४६;
-र्णे माश्रौ १, २, ६, २२; वैश्रौ
५, ८ : ११; हिश्रौ १, ८, २५;
वागृ १४, १७; -र्णेषु वैश्रौ १५,
२५ : ३.
उपस्तीर्णा(ण-अ)भिघारित, ता-
-तम् बौश्रौ २, १३ : ४; ४, ८ :
९; ५, १२ : १७; ६, १८ : १९;
७, १२ : ३; ८, १९ : २; १२,
१ : ११; १३, ३१ : ११; ३३ :
१३; १४, १३ : २५; १७, १० : ५;

a) भाप., नाप. (मन्त्र-प्रसृ.)। गस.। b) वैप १, ९४५ k द्र.। c) वैप १ द्र.। d) पाभे.
वैप १, ९४६ j द्र.। e) पाभे. वैप १, ९४६ m द्र.। f) मलो. कस.। g) समाहारे द्रस.।
h) पाठः? उपस्तीर्णा(ण-अ)भिघारितस्य, औदुम्बरी- > -र्या इति द्वि-पदः शोधः (तु. [आशिकम्] आमिगृ ३, २,
७ : ३)। i) = उपस्तरण-। j) वैप १, ९४७ c, d द्र.।

१४ × ×; आमिष्ट; -त्ताः काश्रौसं
२६:४; वौश्रौ १३, ३९:६; -तान्
वौश्रौ ३, १० : २१; छ, ११ :
१०:५, २ : १७; १४, १३ : १७;
भाष्ट १, १६ : १२; हिष्ट २, ८,
५; जैष्ट १, २१ : १९; -ताम्
आमिष्ट २, ५, ८ : १२; ३, २, ५ :
११; आपष्ट १३, १६; २२, ४;
भाष्ट २, १६ : १२; हिष्ट २, १५,
७; -तौ आपश्रौ १५, ९, २;
वौश्रौ ९, ६ : १९; भाश्रौ ११,
९, २; वैश्रौ १३, ११ : १.

? उपस्तीर्णाभिघारितौ दुम्बर्या^१
आमिष्ट ३, २, ७ : ३.

उप-स्तीर्य शाश्रौ छ, १६, २ × ×;
काश्रौ.

उप-स्तृगृत्- -णन्तम् कौसू ७८, २;
४.

उप-स्तृणान- -नः वौश्रौ छ, ८ :
१०; ७, १२ : ७; १०, ५४ : ३;
१५, ३५ : ३; २२, १० : १२.

उप-स्तृत- > °त- समवत्तधा
(न >) नी- -न्याम् वैश्रौ १०,
१९ : ४.

शुपस्थ^२- पाग छ, ४, १२; -स्थः
आश्रौ छ, ८, ४; काश्रौ २१, ४,
१५^३; आमिष्ट २, १, ५ : ११^४;
-स्थम् आश्रौ ६, ५, ४; १२, ६,
९^५; शाश्रौ १, ६, १०; ५, १३, ८^६;
१५, २४, १; १७, १६, ७; काश्रौ
१०, ६, २०^७; २३; आपश्रौ
१३, १४, ११^८; १४, १, ७^९;
१६, ७, ४^{१०}; २४, १३, २; वौश्रौ
६, ५ : ६; ८, १४ : २७; १८,
१० : २१^{११}; २४, २१ : १५;

माश्रौ १, ८, २, १९; २, २, २,
२६; ५, २, १६; वैश्रौ १६, १८ :
१^१; १८, ५ : २; हिश्रौ ९, ४,
२३^{१२}; ११, २, २; आष्ट ३, २,
२; ८, १४; कौष्ट १, १२, २;
शाष्ट १, १९, २; पाष्ट ३, १४, ६;
आमिष्ट १, ६, ३ : ६६; भाष्ट
२, २८ : २; गोष्ट २, १, ९; ५,
९; द्राष्ट १, ४, १५; कौसू ७८,
७; ऋया ९, ३७^{१३}; -स्था^{१४}
आश्रौ छ, १२, २; -ऋस्थात्
आश्रौ १, १२, ३६; आपश्रौ ९,
२, १०; माश्रौ २, ४, ३, २९^{१५};
३, १, २७; वैताश्रौ १६, १७^{१६};
अप्राय छ, १; या ९, ३९^{१७};
-स्थान् वौश्रौ १६, २२ : ८;
२३ : २; ५; द्राश्रौ ३, ३, २९;
लाश्रौ १, ११, २२; -स्थे आश्रौ
१, १३, १; छ, १२, २; ५, १९,
८; शाश्रौ छ, ७, ६; ११, १^{१८};
१४, ३१; ८, ५, ४; काश्रौ ३,
३, १२^{१९}; ८, ६, २९; ९, १४;
२०, ६, १६; २५, ११, ३४;
आपश्रौ १, ५, २^{२०}; १८, ५; २,
२, ६^{२१}; ३, १०, ३; छ, १६, ८;
१०, ३१, ६^{२२}; ११, १६, ११;
१३, १५, १^{२३}; २५, १; १४, ९,
१; ३; ऋश्रौ ७, ४; ९, १४;
१०, १७; १२, ४; २४, १३,
२^{२४}; ऋश्रौ १, ५ : २६; २१ :
८; ३, १६ : २९; २० : ७;
१०, १३ : २४; १६ : ११; १७ :
५; १५, २९ : ३४^{२५}; ऋभाश्रौ १,
४, १९; २०, ६; २, २, ६; ३,
९, ७^{२६}; छ, ९, २; माश्रौ १,

१२, १, ४२; ४, १९; ३, २, ७^{२७};
५, १६; २, २, ४, १८; २६;
६, १, ४, १७; वाधुश्रौ छ, ३१ :
५; ऋवाश्रौ १, २, ४, ३६; ३,
२, १; ७, १६; २१; वैश्रौ छ, ६ :
३^{२८}; ७, १४ : १; १४, १४ :
९; १६, १८ : ७; ऋश्रौ ५, ३;
७ : १६; ११ : ५; हिश्रौ ऋश्रौ
५, ३३; ६, ११; २, ५, ३२; ६,
४, ६; ३०; ७, ३, ५६^{२९}; ८,
७; ९, ४, २४^{३०}; १०, ५, ३६;
८, ३१; ११, २, २; ३, १७^{३१};
३८; ५, २^{३२}; लाश्रौ ८, ८, २८;
वैताश्रौ २३, ५; निसू २, ६ :
२७; आपमं १, ९, २^{३३}; आष्ट
१, १७, ३; छ, ३, १२; कौष्ट ५,
३, २१; पाष्ट १, १४, ५; ३, ३,
५; आमिष्ट २, १, ४ : १२; ऋश्रौ
८, २ : ११; ३३^{३४}; ५०; आपष्ट
१५, १; ५; वौष्ट २, १, ९^{३५};
वौषि १, १५ : १७; २१; ४०^{३६};
५६^{३७}; भाष्ट १, २५; ७; माष्ट १,
१४, ८^{३८}; वाष्ट ९, ३; हिष्ट २, ३,
११; गोष्ट २, ४, ७; गौषि २, ७,
२५; जैष्ट १, २२ : ८; कौसू १०,
१७; २९, २२; ३५, १७; ४०, १५;
७०, ६^{३९}; ७८, ८; ९१, ४^{४०};
अप्राय १, २; ऋया छ, १९; ६,
६^{४१}; ७, २६^{४२}; ८, १५^{४३};
१८^{४४}; ९, ४०^{४५}; शुप्रा छ,
६९^{४६}; तैप्रा छ, २१^{४७}; -स्थेन
आश्रौ १, ३, ३१.

वौषिस्थिक- पा छ, ४, १२.

उपस्थ-कृत^४- -तः आश्रौ ६, ५, ५;
शाश्रौ छ, १६, ४; माश्रौ १, ५,

a) शोधः पृ ७१९ h द्र. । b) वैप १ निर्दिष्टयोरत्र संनिवेशः द्र. । c) प्रमाणार्थकस्य प्र. लुक् ।

d) वैप १, ९४७ i द्र. । e) पाभे. वैप १, ९४७ l द्र. । f) पाभे. वैप १, ९४७ m द्र. । g) पाभे. वैप १,
९४७ n द्र. । h) विप. । वस. ।

३, १५; वाश्री १, ४, २, २१;
 कौट ५, ८, ४; माग्य २, १, १६;
 -तम् बौध २, ४, १८; ४, १, ४.
 उपस्थ-कृत-पाद- -दः शां ४,
 ८, १०.
 उपस्थ-गुद-पायु^b- -यु या १४, ७.
 उप/स्था^c, उपतिष्ठते आश्री २, ५,
 १××; शाश्री; उपतिष्ठति बौश्री
 २२, ७ : १६; वैश्री; उप...
 तिष्ठति अप १, १८-२०, १;
 ४; २१, १-३; उपतिष्ठते बौश्री
 ७, ११ : १; माश्री २, २, ४,
 ८; भाग्य १, ७ : २; १५ : २;
 उपतिष्ठतः बौश्री १२, १८ : ६;
 कौट २, १, २८^d, उपतिष्ठन्ते
 आश्री १, १३, १०^e××; कंशाश्री;
 द्राश्री ९, १, १६^f; लाश्री ३, ५,
 १५^g; या ६, ८^h; उपतिष्ठन्ति
 कौसू ८१, ४१; अप १, ४८, ६××;
 ऊउप (तिष्ठन्ति) वृदे ६, ९१;
 अत्र ९, ७; ऊउपतिष्ठे शाश्री २,
 १३, २; ४-६; आपश्री ६, २५, २;
 बौश्री २४, ३० : २१; भाश्री ६,
 ५, ५; माश्री १, ६, ३, १८; हिश्री
 ६, ७, ५; सु ९, ४; १७, ४;
 उपतिष्ठताम् शां ४, २, ५;
 गौपि १, ५, ९ⁱ; २, ६, ११;
 उपतिष्ठतु कौट ५, ७, २^j;
 आमिग्य ३, ११, २ : ९^k; बौग्य
 ३, १२, ८; बौपि २, ९, १९; २१;
 ११, ८; ३, ६, ९; उपतिष्ठन्ताम्
 अप १६, १, १०^l; ऊउपतिष्ठन्तु
 आपश्री ५, १४, ५; बौश्री २,
 १७ : ११; हिश्री ६, ५, १४;

माग्य १, ४, ५; वाग्य ८, ४; ऊउप-
 तिष्ठस्व काश्री ९, १२, ४^m; बौश्री
 १४, १५ : १४; जैश्री १४ :
 २०; आपमं २, ७, २६ⁿ; ऊउप-
 तिष्ठ^o माश्री २, ४, १, ३५;
 वैताश्री १९, १८; उपतिष्ठत
 बौपि १, ९ : १^p; उपतिष्ठेत
 आश्री २, ५, १९××; शाश्री;
 उप... तिष्ठेत आपश्री १६, ११,
 ९; उपतिष्ठेत् माश्री १, २, ६, ५;
 माग्य; उप... तिष्ठेत् पाग्य ३, १३,
 ३; अप १, १८-२०, २; उपतिष्ठे-
 याताम् वैग्य ३, ५ : १०; शंघ
 २४८; उपतिष्ठेरन् बौश्री २१,
 २४ : १५××; माश्री.
 उपतस्थुः या ७, २६^q; उपस्थे-
 याम वाश्री १, १, ६, ६; ऊउप...
 अस्थित^r आपश्री ४, १३, ४;
 माश्री ४, १९, ६; वाश्री १, १,
 ४, १०; हिश्री ६, ४, २; ऊउप
 (अस्थिरन्) शाश्री १४, ५२, ५;
 निसू ६, १३ : ९; अप ४६, ५,
 २; अत्र ४, २५; सात्र १, १३;
 २, ९२०; ऊउप... अस्थुः^s
 आश्री ६, ३, १; शाश्री ९, ५, २.
 उपस्थापयति बौश्री ४, ५ :
 २××; माश्री; उपस्थापयन्ति
 बौश्री ६, १६ : १५; १५, २३ :
 १३; १६; वाधूश्री ३, ९९ : १;
 हिश्री १४, ३, ४६; उपस्थापय
 बौश्री ११, ६ : ४; उपस्थापयेत्
 आश्री ८, १४, ६; बौश्री २१,
 १४ : ८; अप १९, १, ९; उप-
 स्थापयेयुः अप्राय ३, ५.

उपस्थापयामास शाश्री १५,
 २३, १.
 उप-तिष्ठत्- -छति काश्री ७, २, ६;
 १२, ६, १; आपश्री ५, १०, ९;
 भाश्री ५, ६, १; -छद्मयः आपग्य
 १३, १९; आपघ २, ८, ७; हिध
 २, १, १०९; -छन् आपश्री ४,
 ३, ५; द्राश्री ४, ४, १७; लाश्री
 २, ४, १०.
 उप-तिष्ठमान- -नः कठश्री १६;
 १८; वैश्री ३, २ : १७; बौध २,
 ४, २४^t; -नस्य अप्राय १, १.
 २ऊउप-स्थ^u- -स्थाः कौसू ५०, १०;
 अप ३२, १, १८; अत्र १२, १.
 उप-स्था^v- -स्थाम् बौश्री ६, ६ :
 १९.
 १उप-स्थान^w- पाग ४, ४, १२; ६२;
 -नः बौश्री १, १७ : १^x; -नम्
 आश्री ५, १२, २; ९, २, १८;
 शाश्री ३, २१, ७; १०; ४, २, ८;
 १०; ५, ४, ३; काश्री ४, १२, १९;
 १७, ५, ५; २५, ३, १४; आपश्री
 ६, २६, ६; ८; १९, १०, ६; काठश्री
 २०; २१; बौश्री ३, १४ : ११; ९,
 २ : १२; १६; २१; २५; २९; १४,
 ८ : ३६; २१ : ३७; १९, १० :
 १७; २०, ३१ : २७; २२, ५ :
 ५; २५, १९ : ७; ३० : १७;
 २८, १२ : २२; वैश्री १, १२ :
 १२; १३ : १४; हिश्री ६, ७,
 ८; १०, ५, १६; ३६; २३, १,
 ५६; जैश्रीका; या ९, ३७; -नान्
 माश्री ६, १, ४, २४; या ९, ३९;
 -नान् आपश्री ११, १४, ८^y;

a) विप. । सस. > बस. । b) समाहारे द्वस. । c) पा, पावा १, ३, २५; पा १, ३, २६ परामृष्टः द्र. ।

d) सपा. शां २, १, २८ तिष्ठतः इति पाभे. । e) सपा. शौ ९, १, ९ पै १६, ३२, ९ उपसीदन्ति इति पाभे. । f) पाभे.

वैप १, ९४८ j द्र. । g) पाभे: वैप १, परि. द्र. । h) पाभे. वैप १, ९२५ i द्र. । i) वैप १ द्र. । j) आप. ६

k) उप. भावाद्यर्थेषु प्र. । *l) = मन्त्र-विशेष- ।

-नानि वाश्रौ ३, ४, १, ७;
-ने बौश्रौ २०, २० : २६; २४ :
४३; ३१ : २८; २१, १२४३;
१४ : ५; २४ : १४; २२, ४ :
२८; ३२; ९ : ६; २३, १६ : १६;
अप्राय ४, ४; गौध ५, २८; या
७, २६; ८, १५; १८; ९, ४०;
-नेन आपश्रौ १९, १२, २१;
हिश्रौ २३, २, ३२; हिपि १६ :
१०; -नेषु लाश्रौ ७, १०, १;
-नैः माश्रौ २, ५, २, ९; हिश्रौ
६; ६, ८.

औपस्थान- पा ४, ४, ६२.

औपस्थानिक- पा ४, ४, १२.

उपस्थाना(न-अ)न्त^१ -न्तम्
वैताश्रौ ५, १२.

उप-स्थापत्- -पत् बौश्रौ १८,
४५ : ४.

उप-स्थापन- (> उपस्थापनीय-
पा.) पाग ५, १, १११.

उप-स्थापयत्- -यन्तः ऋप्रा १५,
१६.

उप-स्थाप्य काश्रौ ७, ९, २२;
आपश्रौ.

उप-स्थाय आश्रौ १, ११, १४××;
शाश्रौ.

उप-स्थावन^२- -वानम् बौश्रौ १५,
२२ : १७; १७, १२ : ४; २६,
२४ : ५; ६; -वानौ शाश्रौ १६,
३, ३; १२, ४; बौश्रौ १५, १४ :
३; २६, २३ : ६.

उप-स्थित, ता- पाग ६, २, १४६;
-तः वाधूश्रौ २, ४ : ३; -तम्
बौश्रौ ६, १५ : १९; १२, १४ :

११; वैश्रौ; ऋप्रा^० १०, १२;
११, २९; १५, ९; -तान् आश्रौ
५, ३, २०; या ६, १७; -ताम्
अप ७१, १६, ४; विध १, २९;
-ताय आगृ १, २४, २; -तायाम्
गोगृ ३, १०, १७; -ते आमिगृ
१, १, ४ : २०; भागृ; ऋप्रा ११,
६१^०; शुप्रा ४, ९०^०; पा ६, १,
१२९^०; -तेषु वैश्रौ १५, २७ :
१६; अग ६९, ४, ३.

उप-स्थिति- -तिः जैश्रौका २६; २८;
१३४; २१०; -तेः जैश्रौका
३२; -तौ जैश्रौका १३५.

उप-स्थेय- -यः आपश्रौ ६, १९, ४;
२०, १; २७, १; वैश्रौ २, ९ : ७;
हिश्रौ ६, ६, २१; -यम् काश्रौ
१७, १, २; -या३ः आपश्रौ ६,
१९, ४.

१उप-स्थान- उप√स्था द्र.

२उपस्थान^०-(> औपस्थान्य- पावा)
पावाग ४, ३, ५८^१.

उप-स्थूण- (> औपस्थूण्य- पावा.)
पावाग ४, ३, ५८.

उपस्थूल^०- (> औपस्थूल्य- पावा.)
पावाग ४, ३, ५८^१.

उप√स्पृश, उपस्पृशते आपगृ ११,
१३; उपस्पृशति शाश्रौ ७,
१८, ८××; काश्रौ; उप^०
स्पृशति बौश्रौ ८, २० : १८;
उपस्पृशन्ति आश्रौ ३, ६,
२४; काश्रौ ५, १०, २०; ६,
१०, ५; २५, ७, ४१; वैताश्रौ
१६, ४; आगृ ४, ४, १३; गौपि
१, ४, १६; ऋप्रा^० उपस्पृशतु आपमं

२, १८, ११; १२; भागृ २, ८ : ८;
९; हिगृ २, ८, ५^{१६}; उपस्पृशन्तु
आपमं १, २, ५^{१६}; ऋप्रा^० उपस्पृश
आपमं २, १८, १३^६; ३३; ३४;
४५^१; आपगृ ३, १४; बौगृ २, ५,
५८; भागृ २, ८ : १०^६; ९ : ९^३;
१०^६; १० : १; २; हिगृ २, ९, २^६;
ऋप्रा^० उपस्पृशत आपमं २, १८,
३५-४४; भागृ २, ९ : ११;
१२^२; १३-१६; १० : ४^१; ६;
हिगृ २, ९, २^६; ३; ४; ५^१; अप्रा
१, ३, १३; उपस्पृशेत आश्रौ ६,
५, ३; ८, १४, १८; काश्रौ; उप-
स्पृशेयुः बौश्रौ २३, ११ : ७^३;
द्राश्रौ १३, २, १०; ३, २२; लाश्रौ
५, ३, २; ४, ६.

उपस्पृशेयति आमिगृ ३, १, २ :
२२; भागृ २, ८ : ८; हिगृ २, ८,
५; ११, ४; उपस्पृशेयत् हिश्रौ
१२, ४, ३; उपस्पृशेयुः गौध
२०, १०.

उप-स्पर्श- -शम् माशि ५, ९.

उप-स्पर्शन- -नम् शाश्रौ १, ९, ३;
काश्रौ; -नात् गौध २, ७; -ने
आपगृ ३, १६; आपध २, २, ९;
हिध २, १, ३१.

उपस्पर्शन-कल्प- -ल्पेन वागृ
५, ६.

उपस्पर्शन-काल- -ले शागृ ४,
९, २.

उपस्पर्शन-भाषा- -वाः आपध
२, ५, १०; हिध २, १, ९१^१.

उपस्थाना(न-अ)न्त^१ -न्तम्
वैताश्रौ २४, ३.

a) विप. । बस. । b) =यूप-विशेष- । गस. वनिबन्तम् । c) =पारिभाषिक-संज्ञा- । d)

=[अनार्थ-] इति-शब्द- । e) अर्थः व्यु. च ? । अस. इति पागम. । f) तु. पागम. । g) सपा. सकृत् उपस्पृशतु
<> उपस्पृश इति पामे. । h) पामे. वैप १, १५० ० द्र. । i) सपा. उपस्पृश <> उपस्पृशत इति पामे. ।

j) *भाषवि* इति पाठः? यनि. शोधः (तु. आपध.) ।

उप-स्पृशित्वा आपश्री १८, १४, १०; हिश्री १३, ५, २३; आमिगृ १, १, २ : ५४; आपशृ २०, ४; २१, ८; भाग ३, १६ : ८; हिगृ १, ४, १३^१।
 उप-स्पृश- -शाः सुध १५।
 उप-स्पृशत्- -शान् आपश्री ४, ४, ६×४; आपश्री; -शान्तः शाश्री ५, ८, ३; आपश्री।
 उप-स्पृश्य आपश्री १, ४, ८×४; शाश्री; उपस्पृश्यऽउपस्पृश्य कौगृ ५, ४, ३।
 उप-स्पृश्य- -श्यः माश्री १, ८, ६, ११; वाश्री १, ६, ७, २९।
 उप-स्पृष्ट- -ष्टम् वागृ ५, ६; -ष्टस्य आपश्री १२, ९, १०।
 उपस्पृष्टो(ष्ट-उ)दक^b- -काय आपश्री ३, २, ५, ९, ७।
 उपस्पृश^c- -स्पृशः शाश्री १२, १४, ११।
 उप√स्मृ, उपंस्मरेत् हिश्री १५, ४, ४३।
 उप-स्मृत्य काश्री ४, १५, ३१।
 उप√स्रु>उप-स्रवण- -णात् काश्री २५, ११, १४।
 उप-स्रुत्- पावाग ३, ३, १०८^d।
 ?उपस्रु(त>)ता^e- -ताः कौगृ ३, १५, ४^f।
 उप√स्वज्ज>उप-स्वज^g- -जे हिश्री १०, ३, २६।
 ?उपस्वजा^h वाश्री ३, २, २, ३४।
 उप√स्वृ, उपस्वरेत् द्राश्री २, ४, १२;

लाश्री १, ८, ९।
 उप√हन्, उपहन्ति बौश्री २, ५ : २७×४; वाधुश्री; उपहन्ति या ९, २०; उपहन्त्यात् आपश्री १८, २०, १५; बौश्री; उपहन्त्युः द्राश्री ३, १, २०; लाश्री १, ९, २२।
 उपहन्त्यते वाध ३, ४६; शंध १६३।
 ऊउपजिघ्नते या ९, २०^१।
 उप-घात- -तम् कौगृ ४, २, ३^२; -ताः शागृ ४, १५, ११; १९; अप ३१, ३, ५; -तात् बौश्री २६, ३२ : ४; -ते बौध १, ६, १६; २४; ४३; -तेन वैश्री १३, १३ : ८।
 उपघात-संयोग^३- -गः मीसू ४, ३, ३७।
 उपघाता(त-अ)पहार- -रेपु बौश्री २९, १ : १३।
 उप-घातम् बौश्री १, २१ : ९×४; पागृ।
 उप-घ्न- -घ्नः पा ३, ३, ८५।
 उप-घ्नत्- -घ्नन् काश्री ६, ८, १७; बौश्री ४, ९ : २९।
 उप-हत, ता- -तः आपश्री २१, ९, ९^४; आपध; -तम् बौश्री २७, ९ : ५^३; वैश्री; -ता काश्री १५, ३, २०; -ताय आपश्री २१, ९, १; बौश्री १६, ६ : ५; -तेषु शाश्री १३, २९, १८।
 उपहत-मात्र- -त्रम् विध २३, ३७।

उप-हृत्य शाश्री ४, २१, ८; १७, ११, ४; काश्री।
 उप-हृत्या^०- -त्याम् अप ४६, ५, ३^१।
 उप-हरण- प्रमृ. उप√हृ द्र।
 उप-हव- प्रमृ. उप√हे द्र।
 उप√हृस्, उपहसेत् पागृ २, ७, ९।
 उप-हास- -सम् पागृ १, ११, ६; गोय ३, ५, ३; जैगृ १, १९ : २३; द्रागृ ३, १, ३२।
 उपहास्य^k- -स्यः बौश्री १८, ४६ : ७।
 उपहस्त^१- (>बौपहस्तिक- पा.) पागृ ४, ४, १२^m।
 उप-हार- उप√हृ द्र।
 उप-हित- उप√धा द्र।
 उप√हु(दाना^०), उपजुहोति काश्री ५, १३, १; बौश्री; उपजुहति बौश्री २४, २९ : १५; २६, ९ : ५; आमिगृ; उपजुहुयात् शाश्री १३, २, ८; आपश्री १४, १८, २; †१९, १६, २०; २३; बौश्री २०, २२ : ९; २४, ३३ : ७; उपजुहुयुः बौश्री २३, १९ : ३९; हिश्री १५, ५, ५।
 उप-हु(त>)ता- -ताम् आपश्री ७, २३, ३।
 उप-होतव्य- -व्यम् वैश्री २१, ४ : ५।
 उप-होमⁿ- -मः कागृ ४७, १३; -मम् भागृ ३, ३ : ७; -माः आपश्री ९, ८, ७; १९, १६, १८; १८, १२; २३, ९; २५, ८; १५;

a) पाठः ? अपः स्पृशे^० इति Böht [ZDMG ५२, ८१] इति शोधः । b) विप. । बस. । c) वैप १ द्र. । d) तु. पागम. । e) उपस्रुतास्त्रवन्ति इति पाठस्य स्थाने सप्र. मा ३५, २० प्रमृ. विशिष्टः पाभे. । f) =वक्षस्- (तु. भाष्यम्) । गस. उप. करणे घः प्र. । g) पाठः ? । सप्र. मा ८, ५१ प्रमृ. उप-स्रुत्- > -जन् इति । h) पाभे. वैप १, ९५० गृ द्र. । i) तुस. पूप. ? = पुत्रजन्मन्- इति शवरः, = घटना- इति गणानाथः । j) सपा. उपहतः <> उपहृयति इति पाभे. । k) तदितः प्र. द्र. । †हास्यस इति मत्वा †हासिन्- [जार-] > -सी, भास इति संस्कृता (तु. तत्सूची) । l). अर्थः व्यु. च ? । m) †स्तिन्- इति पागम. । n) होम-विशेष- । गस. ।

२७, १४; काश्रौसि; -मान्
आपश्रौ १९, ९, ३; २४, १; हिश्रौ
२२, ५, ३; २३, १, ४५;
भाय २, १७ : १०; -मानाम्
आपश्रौ २, २१, २; -मे काश्रौसि
५:१०; -मौ हिश्रौ २२, ३, १९.
उपहोम-काल- -ले आपश्रौ १९,
२४, १; २६, १७.

उप-हृत-, ह्य, ह्यमान- उप √हे द्र.
उप √ह, उपहरति आपश्रौ २, ६, १;
१९, २१, ६; बौश्रौ; आपघ १,
४, ३^६; उपहरन्ति काश्रौ ७, २,
२; २१, ३, १२; आपश्रौ; उप-
हरेत् आपश्रौ २, १, ४; भाश्रौ.
उपहारयेत् अशा १५, ४.

उप-हरण- -णम् आप ४४, ३, ६.
†उप-हर्तवै आपश्रौ ३, ४, १; भाश्रौ
३, ४, १; वैश्रौ ७, ३ : ६; हिश्रौ
२, ३, ४०; ६, ३, ७.

उप-हर्तृ- -र्ता विघ ५१, ७४.
उप-हार^७- -रः आमिष्ट २, ५, १ :
३६; काय १३, ४; ५०, १; बौघ
२, ३, ६०; -रम् आमिष्ट २, ५,
१ : १३; अप २०, ५, ५; ६;
-रान् आमिष्ट २, ५, १ : ५; अप
७०^३, ९, ३; -रे मीसू १०, २,
१७.

उप-हृत, ता- -तम् आपघ १, १६,
२२; ३१; बौघ २, ३, २०; हिघ
१, ५, २१; ३१; -तायाम् वाश्रौ
३, १, २, ४४.

उप-हृत्य भाश्रौ १०, २१, १४;
वाश्रौ १, २, १, १६; वैश्रौ १३,
८ : ११; आमिष्ट २, ५, १ : ४२;
बौघ २, ३, ११.

उप-हियमा(ण>)णा- -णा अत्र
१२, ५(४)†.

उप √हृवृ> उप-हृर^०- पाउभो २, ३,
७४; -रे शुभ्र ३, ६८†; साअ
१, १४३†.

उप √हे^८, उपह्यते आश्रौ १, ७,
६ x x; शाश्रौ; उप...ह्यते
बौश्रौ ७, १५ : २३; ८,
१४ : २६; उपह्यति हिश्रौ
१६, ४, ८^०; उपो(प-उ)...ह्यन्ते
बौश्रौ १६, १ : १०; †उपह्ये
आश्रौ ४, ७, ४; शाश्रौ; या ९,
३४; ११, ४३; ऋप्रा १४, ५२;
उप...ह्ये लाश्रौ ९, ९, २१†;
उप (ह्ये) आश्रौ ५, १०, २८†;
उपह्यामि वाश्रौ ३, ४, ३, ९†;
†उपह्यामहे आपश्रौ ६, २७, ३;
हिश्रौ; †उप...ह्यताम् आश्रौ
१, ७, ७^६; ५, ६, १; ७; ११; शाश्रौ
१, ११, १^{१३}; आपश्रौ ४, ११,
२^२; बौश्रौ ३, २९ : २; ४; ६-८;
११; १२^१; भाश्रौ ३, ३, ७; ८, १६;
वाश्रौ १, ३, ५, १२^२; हिश्रौ २,
५, २१^२; †उप (ह्यताम्)
आपश्रौ १२, १९, ७; २०, १;
बौश्रौ ७, १०, ३^२; वैश्रौ १५,
२३ : ३; ४^२; ५^२; हिश्रौ ८, ५,
२४; २७^५; अअ १९, ५८; †उप-
...ह्येताम् बौश्रौ ७, १० : २;
माश्रौ २, ३, ७, ६; †उप (ह्ये-
ताम्) आपश्रौ १२, १९, ७; वैश्रौ
१५, २३ : २; हिश्रौ ८, ५, २५;
†उप...ह्यन्ताम् आश्रौ १, ७,
७^६; ५, ६, १; ७; ११; शाश्रौ १,
११, १^{१३}; ६, ८, १४; बौश्रौ ३,

२९ : ९; १०; ७, १० : ४; माश्रौ
२, ३, ७, ६; वैश्रौ १५, २३ : ५;
हिश्रौ ८, ५, २७; †उप(ह्यन्ताम्)-
आपश्रौ १२, २०, १^३; बौश्रौ ७,
१० : ३; माश्रौ २, ३, ७, ३;
वैश्रौ १५, २३ : ५; हिश्रौ ८,
५, २७; †उपह्यस्व आश्रौ २,
१६, १८^३x x; शाश्रौ; †उप...
ह्यस्व काश्रौ १२, ४, २८;
आपश्रौ २, ५, ६; बौश्रौ १, १२ :
३५; भाश्रौ २, ५, ६; माश्रौ १,
२, ५, ११; वाश्रौ १, ३, २, १९;
हिश्रौ १, ७, १८; वैताश्रौ
२४, १^२; वाय ५, १६^६;
†उपह्यध्वम् आश्रौ ५, ६, १५;
१७; बौश्रौ; †उप...ह्यध्वम्
आश्रौ ५, ७, ३^६; शाश्रौ ७, ६,
३^६; काश्रौ ९, १२, ११^६; आपश्रौ
२, ५, ७; १२, २६, ३^६; बौश्रौ
१, १२ : ३६; ७, १५ : १७^६;
भाश्रौ २, ५, ७; माश्रौ १, २, ५,
११; २, ४, १, ५०^६; वाश्रौ १,
३, २, १९; वैश्रौ १५, ३३ : ११^६;
हिश्रौ १, ७, १९; ८, ७, ७०^६;
†उपाह्यत बौश्रौ १८, २८ :
३; हिष्ट २, ७, २; उपाह्यन्त
शाश्रौ १४, ५०, १; उप(अह्यन्त)
अअ ८, १०(२)†; उपाह्यन् वृदे
३, ८४; उपह्येत आपश्रौ ९, २,
३; बौश्रौ २९, १० : २२; भाश्रौ
४, १५, ४; ९, ३, १; १०, २२,
१४; हिश्रौ १५, १, ४१; उप-
ह्येरन् दाश्रौ ३, ४, २८; लाश्रौ
१, १२, १४.
उप...हुवे माश्रौ १, ४, १, १३†.

a) पाभे. पृ ५७८ d द्र. । b) भाप., नाप. (बलि-) । c) वैप १ द्र. । d) पा १, ३, ३० परामृष्टः
द्र. । e) पाभे. पृ ७२३ i द्र. । f) पाभे. वैप २, ३३६. उप...नयस्व टि. द्र. । g) पाभे. वैप २, ३३६.
हृगध्वम् शाश्रौ २८, ६ टि. द्र. ।

उप-हव- पा ३, ३, ७२; -वः
आश्रौ ५, ८, १०; वाश्रौ; -वम्
आश्रौ २, १६, १७××; शाश्रौ;
-वाय निस् ६, ३ : १२; -वे
आपश्रौ ४, १०, ४^२; काश्रौसं.
उपहव-काम- -मः माश्रौ २, ४,
१, ५०^१.
उपहव-कम- -मः जंश्रौका
१३९.
उप-हव्य- -व्यः काश्रौ २२, ८, ७;
बौश्रौ १६, ३१ : १९; द्राश्रौ ४,
३, ५^२†; लाश्रौ २, ३, ५^१†;
-व्यम् शाश्रौ १४, ५०, १; बौश्रौ
१८, २८ : ३; -व्यस्य बौश्रौ
२१, २० : १८; हिश्रौ १८, २,
१; -व्ये लाश्रौ ८, ९, १; मीस्
२, ४, २८; -व्येन आश्रौ ९, ७,
२९; आपश्रौ २२, ९, ८; हिश्रौ
१७, ४, ४.
उपहव्य(व्य-ऋ)त्तपेय- -ययोः
लाश्रौ ९, ६, २१.
उप-हृत, ता- -†न्त माश्रौ १, ७,
२, १७; २, ४, १, ३१; ४४; ४,
५, ८; -†तः आश्रौ १, ७, ७^२; २,
१६, १९××; शाश्रौ; माश्रौ ३,
६, १५^१†; लाश्रौ ४, १२, १६^१†;
-†तम् आश्रौ १, ७, ७^२; ५, ६, ७;
११; शाश्रौ १, ११, १^२; १२,
१^२; बौश्रौ; -†तस्य आश्रौ २,
१६, १९××; शाश्रौ; -तस्य-
ऽतस्य आश्रौ ५, १३, ६; -†ता
आश्रौ १, ७, ७^२; ५, ६, १; शाश्रौ;
-†ताः आश्रौ १, ७, ७^२××;
शाश्रौ; -†न्ताः माश्रौ १, ७, २,

१७; २, ४, १, ३१; -ताम् काश्रौ
३, ४, १९; आपश्रौ; -ताम्
बौश्रौ ३, २९ : १३†; -ताय
जैश्रौका २०४; -तायाम् काश्रौ
६, ९, ४; आपश्रौ; -†ते आश्रौ
१, ७, ७; शाश्रौ १, १२, १;
काश्रौ ९, १२, १२; -†न्ते
शाश्रौ १, १२, ५; भाश्रौ ४, १५,
१; द्राश्रौ ९, २, ३^१†; लाश्रौ ३,
६, ३^१†; -तौ शाश्रौ ७, ५, १; ३;
६; अश्र ६, १४०.
उप-हूय आश्रौ १, ७, ८××; शाश्रौ.
उप-हूयमान, ना- -नम् वैश्रौ ६,
१२ : ६; ७, ९ : १०; हिश्रौ
८, ७, ७१; -नाम् आपश्रौ ३,
२, ८; ९, ८; भाश्रौ; -नायाम्
शाश्रौ ४, ९, १; आपश्रौ.
उप-ह्वान- -नम् द्राश्रौ १४, ३, ८;
लाश्रौ ५, ७, ७; -ने काश्रौ ३,
४, १६.
उपह्वान-भक्षण- -णे आश्रौ ८,
१३, २१^१†.
उपह्वाना(न-आ)दि- -दि आश्रौ
५, ६, ३.
उप-ह्वास्यमान- -नः शाश्रौ ७, ६,
६; -नस्य शाश्रौ १, १०, १.
उपा- > उपा-स्थान- -नेषु लाश्रौ
७, १०, १.
१ उपा(प-अं)शु- -शु आश्रौ १, १,
२०; ३, १२; १५; १६××; शाश्रौ.
पा १, १, ३७.
उपांशु-तन्त्र, न्त्रा- -न्त्राः हिश्रौ
२२, २, २; -न्त्राणाम् आश्रौ २,
१५, १७.

उपांशु-तर- -रम् आपश्रौ १०, ४,
११^२.
उपांशु-ता- -ता शाश्रौ १, १, २९;
-तायाम् आश्रौ ८, १३, ३४;
शाश्रौ १३, १, ३.
उपांशु-त्व- -त्वम् मीस् ९, १, २०.
१ उपांशु-देवता- -ताम् माश्रौ ५,
१, ४, २८.
२ उपांशु-देवत, ता- -ता माश्रौ ३,
७, ४; -ताः बौश्रौ २०, १८ :
१३; २२ : १७; २३, १ : ४; भाश्रौ
५, १५, ६; माश्रौ १, ५, ४, ४; २,
१, १, १९; ५, १, ५, १; २,
१०, ३; -तानाम् माश्रौ ५, १,
४, २८; -तेन माश्रौ ६, १, ३, ८.
उपांशु-ध्वान-निमदो (द-उ) पविद-
मन्-मन्द्र-मध्यम-तार- -राणि
तैप्रा २३, ५.
उपांशु-धर्मन्- -र्माणि बौश्रौ २४,
१८ : १२.
उपांशु-प्रभृति-वाच्- -वाचः बौश्रौ
२७, २ : ७^१.
उपांशु-यज्ञ- -ज्ञेन वाश्रौ १, ३, ४,
३०.
उपांशु-याज- -जः आश्रौ १, ६,
१; शाश्रौ १, ३, १२; आपश्रौ २,
१९, १२; २४, २, ३०; बौश्रौ
१३, १ : १५; वाश्रौ १, १, १,
६०; वैश्रौ ४, ५ : ७; हिश्रौ १,
१, ७३; २१, २, १३; मीस् २, २,
९; -जम् शाश्रौ १, ३, १८;
आपश्रौ ४, ९, १३; बौश्रौ ३,
१८ : १३; ५३ : ४; ९; २०,
१३ : २१; २३; २४; २६, ४ :

a) वैप १ द्र. । b) *तम् इति पाठः ? यनि. शोषः (तु. सप्र. तैत्रा ३, ७, १०, ६) । c) *हतः इति पाठः ? यनि. शोषः (तु. सप्र. आश्रौ २, १६, १९) । d) पाभे. वैप १, ९५१ i द्र. । e) *ता इति पाठः ? यनि. शोषः (तु. सप्र. तै १, ६, ३, १) । f) *नम् भ् इति पाठः ? यनि. शोषः (तु. आन.) । g) = निघन-भेद- । व्यु. ? । h) विप. । बस. । i) सपा. *शुप्रभृतिवाच स्थानानाम् <> *श्वादिवाक्स्थानानाम् इति पाभे. । j) = यज्ञ-विशेष- ।

१५; २२ : २२; भाश्रौ २, १८, ६; वैताश्रौ ३, ४; मीसू १०, ८, ४६; -जस्य शाश्रौ १, ८, ६; वौश्रौ २०, १३ : २०; २३, १७ : २८; भाश्रौ ४, १४, ४; वैश्रौ ६, ९ : ५; हिश्रौ ६, ३, २; २१, २, ४७; -जान् वौश्रौ २७, १४ : २५; -जाय भाश्रौ २, १८, ३; माश्रौ १, ३, २, ४; -जायाम् वौश्रौ २८, २ : ४१; -जे शाश्रौ १, १, ४४; हिश्रौ २१, २, ६३; वैश्रु १, १७ : ३; मीसू ६, ५, १०; -जेन वैश्रौ ६, ९ : १; हिश्रौ २, ३९; ७, ४, ७; -जौ माश्रौ १, ३, २, १७; ४, २, ४; १६; वाश्रौ १, १, ३, ४.
उपांशुयाज-वत् आपश्रौ ११, ३, १०; वौश्रौ २८, २ : ४१; वैश्रौ ८, १ : ७; १४, १ : १; ३ : २; १६, १६ : ५.
उपांशुयाज-विकार- -रान् आपश्रौ ३, ८, ६; वौश्रौ २७, १४ : २५.
उपांशुयाजे(ज-इ)न्द्र-महेन्द्र- ध- जर्म आगृ १, १०, ४.
उपांशु-वाय(व्य >)व्या- -व्याः माश्रौ ५, १, ४, २८.
उपांशु-शंसम् वौश्रौ ७, १७ : १.
उपांशु-हविस- -विः शाश्रौ ५, ३, ४; ५, ४; ७, ६; -विषः आश्रौ २, १५, २; माश्रौ ५, १, ४, २५; -विःषु शाश्रौ १, १, ३६.
उपांशुहविषू-टा (<ता)- -टा शाश्रौ १, १६, २१; २, ३, १५.
उपांशु(शु-उ)पहव- -वे आपश्रौ ४, १०, ४; भाश्रौ ४, १५, २;

वैश्रौ ६, १२ : ७; हिश्रौ ६, ३, २.
उपांशुवा (शु-आ)दि-वाक्-स्थान- -नानाम् वैश्रौ २०, २६ : १०.
२उपां(प-अं)शु- -शुः आपश्रौ १२, २०, २०; वौश्रौ १०, ३५ : ५; १४, २२ : १०; ववाधुश्रौ ४, ७६ : १; ७७ : ३; हिश्रौ ८, ६, २०; शुश्र १, ४३६; -शुना काठश्रौ १२५; वौश्रौ २५, १७ : १९; हिश्रौ ८, ३, ४९; -शुम् आश्रौ ५, २, १; शाश्रौ ६, ६, २०; ८, १; काश्रौ ९, ४, २१; ५, ९; आपश्रौ १२, ११, ७; १३, १२; १८, २०; वौश्रौ १४, ६ : २१; १५, २२ : ५; १६, ३ : १६; १८, ३६ : ३; माश्रौ २, ३, ४, ३२; हिश्रौ ८, ३, ५७; -शुनाम् आश्रौ १, ३, १४; -शोः आश्रौ १, ९, ४; २, १५, १६; काश्रौ ९, २, ३; वौश्रौ ७, २ : १७; १०, ३५; ५; १३, ३२ : ११; १४, २२ : १०; १५, २२ : ५; हिश्रौ ८, १, १९; २०; शुश्र १, ५९१; -शौ वौश्रौ २१, १७ : १५.
उपांशु-ग्रह- -हः वैश्रौ १५, २६ : २; -हम् वैश्रौ १५, २२ : ३; -हान् वौश्रौ ७, ६ : ३४; ३५.
उपांशुग्रह-वत् वैश्रौ १५, १४ : ९.
उपांशुग्रह-होम- -मम् वैताश्रौ १६, ११.
उपांशु-पात्र- -त्रम् आपश्रौ १२, १, ७; १०, ५; काठश्रौ; -त्रे आपश्रौ १३, १०, ५; काठश्रौ; -त्रेण आपश्रौ १३, १४, ७x४; वौश्रौ.

उपांशु-पावन- -नानाम् आपश्रौ १२, ११, ११; हिश्रौ ८, ३, ३३; -नौ आपश्रौ १२, १२, १; १३, १०, ५; वैश्रौ १६, १ : १०; १० : ११; हिश्रौ ९, ३, २७.
उपांशु-वत् काश्रौ ९, ६, २.
उपांशु-सवन- -नः आश्रौ ६, ९, ३; काश्रौ; -नम् आश्रौ ५, २, ३; काश्रौ; -नस्य काश्रौ १०, १, ५; -नात् वौश्रौ ८, १ : ६; वैश्रौ १६, १ : ४; -ने काश्रौ ९, ४, ७; -नेन काश्रौ १, ४, ६; वौश्रौ.
उपांशुसवन-पाणि- -णिः काठश्रौ १२२.
उपांशुसवन-वर्जम् आपश्रौ १२, १२, ३.
उपांशुसवन-संसृष्ट- -ष्टस्य काश्रौ ९, ६, ५.
उपांशु(शु-अ)न्तर्याम- -गयोः काश्रौ ९, २, २; ४, २७; वौश्रौ; -मौ आश्रौ ६, ९, ३; ९, २, १५; आपश्रौ.
उपांशुन्तर्याम-पात्र- -त्रयोः काश्रौ १०, ५, १३; वैश्रौ १६, १५ : ४.
उपांशु(शु-अ)भिषव- -वः वौश्रौ २४, १० : १८; -वम् वौश्रौ २६, १५ : ५; १३; २१.
१उपा(प-आ)क- उपा(प/अ)च् इ.
२उपा(क >)का- -कं या ८, ११७.
उपा(प-आ)कृ, उपाकुरुते वैताश्रौ ६, ७; मागृ १, ४, १; उपा- करोति शाश्रौ १०, २१, १०; १७, १४, ५; काश्रौ; उपाकुरुन्ति शाश्रौ १७, ७, १; वाश्रौ ३, २, ४, ३; द्राश्रौ ८, २, २७; लाश्रौ ४,

a) विप. । बस. । b) बस. > कस. > षस. । c) पाप्मे. वृ ७२५ i इ. । d) वैप १ इ. । e) विप. । उस. । f) = उपांशु-सवन- ।

६, १८; निस् ४, २ : ४; उपा-
 कुरुषे या ५, २५; ऋउपाकरोमि
 शांश्री ४, १७, ७; आपश्री ७,
 १२, ८^०; बौश्री २, ९, २८; ४,
 ५ : ६^०; भाश्री ७, ९, ११^०;
 वैश्री १०, ९ : १८^०××; हिश्री
 ४, ३, ४^०; आश्रु; उपाकुर्महे माश्रु
 १, ४, ५; वाश्रु ८, ४^०; उपाकुर्वीत
 वैश्रु २, १२ : २२; अप्राय २, ९;
 आपध १, ११, ६; हिध १, ३,
 ६३; उपाकुर्वीत् आपश्री ७,
 १२, ६××; बौश्री; उपाकुर्वीरन्
 वाध १३, ४; उपाकुर्वुः द्राश्री
 ७, १, १५; ९, २, ६; लाश्री ३,
 १, १५; ६, ६; द्राश्रु ३, २, १४;
 उपाकुर्वीः द्राश्री २, ४, ८; लाश्री
 १, ८, ६.
 उप...आकरम् आश्री ४, ११,
 ६^०; उप(आकरम्) काश्रु ६०,
 ३^०.
 उपा-करण^० - णः आपश्री १२,
 १७, ८; -णम् शांश्री ४, २०,
 ४; काश्री १२, ३, ८^०; २५, १३,
 १; ५; बौश्री ७, ८ : ८; ८,
 २ : १९; ११ : ७; १४, ११ :
 २९; २३, ७ : ३; २४, ९ : ८;
 माश्री २, ४, ४, १६; ५, १, २१;
 वाश्री १, ६, ५, १८; कौश्रु ३,
 ७, १; शांश्रु ४, ५, १; आमिश्रु २,
 ५, ८ : ३९; बौश्रु २, ७, ३०;
 गोश्रु ३, ३, १; जैश्रु १, १४:१;
 -णयोः आपश्री ७, १६, ४;
 १८, १२; हिश्री ४, ३, ५२; ४,
 १३; -णस्य बौश्री १४, ३ :
 २५; -णात् काश्री ३, ३, १७;

माश्री २, २, ५, ४; ५, २, ४, २२;
 ११, १७; ६, २, ६, १२; द्राश्री
 ९, २, ८; लाश्री ३, ६, ७; -णाय
 आश्री १०, ८, ५; बौश्री २०,
 २७ : ५; -णे आपश्री ७, १२,
 ९; १९, १७, ४; बौश्री २०, २७ :
 ३; २१, १६ : ११; १८ : ५;
 २२, ११ : २६; १४ : १२;
 १५; २३.७ : १; ३; १० : ३;
 १३ : १९; हिश्री २२, १, १५;
 आपश्रु ८, १; -णेन वाश्रुश्री ३,
 ८६ : १४.

१ औपाकरण^० - णम् माश्री
 १, ८, ३, २९; ४, ७; -णौ माश्री
 १, ८, ३, १.

२ औपाकरण^० - णे आपध
 १, १०, २; हिध १, ३, ३१.

उपाकरण-काल- -ले आश्री
 १०, ८, २.

उपाकरण-नियोजन-प्रोक्षण-
 -णेषु पाश्रु ३, ११, ५.

उपाकरण-प्रभृति- -ति बौश्री
 २९, ३ : १२.

उपाकरण-बर्हिस्- -र्हिषोः वैश्री
 १०, १३ : ७; १४ : १४.

उपाकरण-मन्त्र- -न्त्रस्य हिश्री
 १६, ३, १३; १६.

उपाकरण-मन्थन- -ने काश्री ६,
 ३, २३.

उपाकरण-विसर्जन- -ने भाश्रु
 ३, ८ : १^०.

उपाकरण-वेला- -लायाम् लाश्री
 १०, ४, ११.

उपाकरण-समापन- -नयोः
 आपध १, ११, ७; हिध १, ३,

६४.

उपाकरण(ण-आ)दि- -दि
 बौश्री २८, ६ : १३; वैश्री २०,
 ३५ : ४; आपध २, ५, १६;
 हिध २, १, ९८.

उपाकरणो(ण-उ)स्सर्जन- -ने
 हिश्रु २, १८, १^०.

उपाकरणीय,या- -ययोः बौश्री
 १४, १४ : ५; १५ : ४; २३,
 ६ : १३; -याम् आमिश्रु ३, २,
 ५ : २; भाश्रु २, १६ : ६; हिश्रु
 २, १५, २; -यौ बौश्री २८, ६ :
 १६.

उपा-करिष्यत्- -ष्यन् काश्री १२,
 ५, ५××; बौश्री; -ष्यन्तौ बौश्री
 १५, २२ : २.

उपा-कर्तव्य- -व्यम् शांश्रु ४, ५,
 १६.

उपा-कर्मन्- -र्मं शांश्रु ४, ५, १५
 बौश्रु ३, १, १; भाश्रु ३, ८ : २

वैश्रु ६, ११ : ४; कप्र ३, ८, १७;
 -र्मणि कौश्रु ३, ७, १३; शांश्रु ४,
 ५, १७; वैश्रु ६, ११ : ३; कप्र

१, १०, ७; ९; विध ३०, २४.
 उपाकर्म-वत् वैश्रु ६, ११ : ६.

उपाकर्मो(म-ओ)ष्ट-रुचिर^०-
 -रः विध १, ८.

उपा-कुर्वत्- -र्वतः बौश्री २६,
 २४ : ४; -र्वताम् आपश्री २१,
 २३, २; हिश्री १६, ८, ५; -र्वन्

वैश्री १५, १९ : ७, ८.
 उपा-कुर्वण- -णः वैश्रु २, १२ :
 २७.

उपा-कृत,ता- पाश्रु २, १, ५९; ५,
 २, ८८; -तः काश्री २५, ९, १;

a) पाभे. वैष १ प्रोक्षामि मा २२, ५ टि. द्र. । b) गस. उप. कर्तरि भावे च कृत् । c) तु. चौसं ।

d) विप. । तस्येदमीयः भण् प्र. । e) स्वार्थीयः भण् प्र. । f) सपा. णविस<>णोस्त् इति पाभे. ।

g) = कर्म-विशेष- । h) = विष्णु- । कस.>तुस. । 'कर्मोष्ट' इति जीसं. ।

आपश्रौ; -तम् आपश्रौ २१, ६, १८x; माश्रौ; -ता: निसू ८, ९: ३९; -तान् आपश्रौ २०, २४, १०; हिश्रौ १४, ३, ५०; -ताय शाश्रौ १५, २१, १; आपश्रौ २०, १५, ६१; बौश्रौ १५, २३: १९; -तायाम् बौश्रौ २६, ९: २; -ते शाश्रौ १३, २, २; काश्रौ.
उपाकृतिन् पा ५, २, ८८.
उपा-कृति- -तौ बौगृ ३, ९, १५.
उपा-कृत्य शाश्रौ १३, ५, २; काश्रौ.
उपा(प-आ)√कृप् > उपा-कृत्य आमिगृ ३, ५, १: १९.
उपा(प-आ)√क्रन्द्, उप(आक्रन्दतु) पागृ ३, ४, ४१^६.
उपा(प-आ)√क्रुश् > उपा-क्रुश्य शंघ ४३२.
उपा(प-आ)√गम्, णउपागहि आपमं २, ११, ११; आमिगृ २, १, ५: १६; कौसू १०६, ७.
उपागमत् या ३, ४.
उपा-गत, ता- -त: शंघ १३७; बौघ २, ३, १३; -तम् वाध ११, २६; विध १७, १८; -ता: अप ३३, २, १; -ताम् जैश्रौका १५.
उपा-गत्य > त्या ऋप्रा ७, ३३.
णउपा(प-आ)√गा, उपा.गाम् माश्रौ ६, १, ८, १०; वाश्रौ २, १, ८, ७; वागृ ५, १६; गोय ३, २, ४३.
उपा(प-अ)मि^७ -मि वैगृ १, २०: २.
उपाङ्क्य-पृष्ठ^८ -ष्ठ: जुसू २, १२: १; ४: ८; १२; -ष्ठस्य शाश्रौ १०, ८, २१; -ष्ठौ क्षुसू २, १३: १३.
उपा(प-अ)ङ्ग^९ -ङ्गम् अप ६८, १, १;

-ङ्गानि चव्यू २: २८.
उपा(प-अ)च् > णउपा(प-आ)-क^{१०} -के आश्रौ ५, १६, १; अप ४८, ७३; निघ २, १६.
उपा(प-आ)√चर्, उपाचरेत् शंघ १५९: ४.
उपा-चरित- -त: कागृ ४१, १९; ऋप्रा ४, ४१^१; -तस्य अप्रा ३, १, ७^१.
उपा-चार^{११} -र: माशि १०, ६^१; -रम् कौसू १४०, ११; अप १९, ३, १; ऋप्रा १३, ३१^१.
उपाचार-कल्प- -ल्पम्^{१२} कौसू ६७, ५; १४०, १.
०उपाचार-दीर्घ^{१३} शौच ४, ७४.
०उपाचार-दीर्घत्व-समापत्ति- -त्ते: अप्रा ३, १, ७.
उपाचार-संज्ञक- -क: उसू ५, ६.
उपा(प-अ)ञ्, उपाजते माश्रौ २, १, ४, २७; उपाजति माश्रौ १०, १९, ७.
उपाजयन्ति जैश्रौ २: १८.
उपा(प-आ)ज- > ०जे/कृ पा १, ४, ७३.
उपा(प-अ)ज्य आपश्रौ १०, २८, १; वाश्रौ १, ३, ३, २९.
उपा(प-अ)ञ्, ङ्, उपाजन्ति आपश्रौ २, ११, ४x; बौश्रौ; उपाजन्ति माश्रौ २, २, २, १८; उपाज्यात् बौश्रौ १४, ३: ३; २१, १४: २४; २५.
उपा(प-अ)ज्जन्^{१४} -न: बौश्रौ ६, २४: ३८; -नम् निसू २, ४: १७; कौगृ १, ९, ३; शागृ १, १५,

३; विध २२, ८८.
उपा(प-अ)जिन- पा ६, २, १९४; पागृ ६, २, १८४.
णउपा(प-आ)√तञ्च् > उपा-तङ्क्य^{१५}-ङ्क्याय आपश्रौ १, ११, १०; हिश्रौ १, ३, १७.
उपा(प-अ)ति√दिश्, उपातिदि-शन्ति बौश्रौ १८, ३४: २.
उपा(प-अ)ति√नी > ०ति-नीय बौश्रौ १७, १४: १४.
उपा(प-अ)ति√रिच्, उपातिरिच्यते बौश्रौ १८, १५: २३; २६, ३१: २०.
उपा(प-अ)ति√हृ > ०ति-हृत्य बौश्रौ ४, ७: ४x.
उपा(प-अ)ती (ति√इ), उपात्येति बौश्रौ ३, १३: ६; २१: ४; १०, १६: ४; १८, ३२: ५; ५१: २४^{१६}; उपातियन्ति बौश्रौ २, १७: २८; ६, ३०: २८; १०, २: १४.
उपाती(ति-इत् >)ता- तासु आश्रौ ५, १, १६.
उपाती(ति-इ)स्य शाश्रौ १२, १३, ५; बौश्रौ.
१उपादलम्भ: वैश्रौ २०, १: २.
उपा(प-आ)√दा, उपादत्ते काश्रौसं २९: १५; वाश्रौ ३, ३, २, ५०; जैगृ १, १९: २१; उपाददते बौश्रौ १२, १६: २२; १७, ५६: २१; ६२: ११; वैश्रौ ९, ११: १०; ११; उपाददे सु १०, १; उपाददीत गौध ३, २०.
उपा-त्त- -त्त: आपध १, १२, ५; बौध १, ७, २८.

a) पाभे. वैप १, ६२७ C द्र.। b) अस.। c) = एकाह-विशेष-। बस. पृ. व्यु. ? < उप/अङ् इति. PW. प्रथ.। d) प्रास.। e) वैप १ द्र.। f) = सधि-विशेष-। g) भाप.। गस.। h) पाभे. पृ ९८७ C द्र.। i) विप., भाप.। गस.। j) वैप २, ३६. द्र.।

उपा-दाय बौश्री १४, २० : ८ ;
माश्री .
उपा-दीयमान- -नः या ७, २३.
उपा-देय- -यम् अप ७०, ३, ३.
उपा(प-आ)दि- -देः पा ५, ३, ८०.
उपा(प-२आद्य>)द्या^१- -द्याः ऋअ
२, ४, १, ५, ८३; -ये ऋअ २, ३,
२१; ८, ९; ११; ९, १०१; १०,
९३.
उपाद्यो(द्या-उ)पान्त्या- -न्त्ये ऋअ
२, १०, १३२.
उपा(प-आ)√दी(क्षये), उपादास्त
पावा १, १, ३९.
उपा(प-आ)√धा, उपादधीत माश्री
५, १, ९, १८.
उपा-धान- -ने आपशु ७, ९.
उपाधान-काल- -ले हिश्री २३,
३, १८.
उपा-घायं गोगृ ४, १, २१.
उपा-घाय्य^२ > ष्य-पूर्व्य^३-
-यम् आपश्री १९, २०, १;
बौश्री १३, २० : २, ६; २६, ५ :
३०; हिश्री २२, ३, १८.
उपा-धि^४- -धिना कप्र ३, १, ९.
उपाधि-मात्रा- -त्रायाम् कौसू
६८, ११.
उपाधि-वृत्ति- -त्तेः पावा १, २,
६४.
उपाध्या(धि-आ)नर्थक्य- -क्यम्
पावा ४, २, १; ५, ३, ९३.
उपा(प-अ)धिक^५- -काः ऋप्रा १५,
३१; १८, ५८.
उपा(प-अ)धि√गच्छ, गम्, उपा-
धिगच्छति बौश्री २, १६ : ९××;
उपाधिगच्छेत् बौश्री २१, १० :

२५; २२, ३ : २५; उपाधि-
गच्छेयुः बौश्री ९, १८ : २०;
२६, २१ : ५.
उपाधि-गम- > ंम-का(ल >)
ला^६- -लाः बौश्री १३, १ : ६.
उपाधि-गम्य बौश्री १४, १३ : १६.
उपा(प-अ)धि√रुह, उपाधिरोहन्ति
वाधुश्री ३, ८३ : १०.
उपा(प-अ)धि√धि > ंधि-श्रित्य
माश्री १, २, ३, २४; ५, ४, १८;
माशु २, २, १०.
उपा(प-अ)धी(धि√इ) > उपाध्या-
(धि-आ)य- पा ३, ३, २१;
-यः वाध ३, २२; शंध ३८;
-यम् कौसू १४१, २८; अप ८,
१, २; ६७, ८, २; बौध १, ११,
४०; विध २२, ८६; २९, २;
-यात् वाध १३, ४८; -याय
कौसू १०, ७; -ये शंध ४६.
उपाध्याया-, ष्यी- पावा
३, ३, २१.
उपाध्यायानी- पावा ४, १,
४९; -नीम् बौगृ ३, ३, २११^७.
उपाध्याय-स्तुति- -तिः ऋअ
२, ३, २६.
उपाध्याया(य-अ)छन्द^८- -न्दः
अप ४०, ६, ८.
उ(प>)पा-नख^९- -खः ऋत ५, १, ९.
उपा-नह- उप√नह द्र.
उपा(प-आ)√नुद्, उपानुदन्ति बौश्री
१२, १८ : ९.
उपानुवाक्य^{१०}- > औपानुवाक्य^१-
-क्यम् बौगृ ३, १, २४; मीसू ५,
३, १५.
औपानुवाक्या(क्य^१)-याज्या-

(ज्या-अ)इन्मेध-पुरुषमेध-सौत्रा-
मण्य (णी-अ)च्छिद्र- -द्वाणि
आमिगृ १, २, १ : १५.
उपा(प-अ)न्त^{११}- -न्ते आपश्री ७, ११,
८; बौश्री ४, ४ : ३९; १७, १३ :
११^{१२}; भाश्री ७, ९, ४; हिश्री ४,
२, ७०.
उपान्ता(न्त-अ)कुष्ठा(ष्ठ-अ)नामिका-
-कामिः वैगृ १, २० : ९.
उपा(प-अ)न्त्य, न्त्या^{१३}- -न्त्ययोः
आपशु १, १२; हिशु १, २२;
-न्त्या ऋअ २, ३, २३; २५, ४,
१०××; -न्त्याः ऋअ २, १,
९३; ४, २३; शुअ २, ४००;
-न्त्याम् ऋअ २, ३, ३६; -न्त्ये
ऋअ २, १, १३५××.
उपा(प-अ)न्वा(नु-आ)√नी > उपा-
न्वा-नीय जैगृ १, १७ : १२.
उपा(प √आ)प्, उपाप्नोति बौश्री
१४, १९ : ७^{१४}.
उपाप्स्यामि लुसू ३, १० : ४;
निसू ४, ९ : ३१.
उपेप्सन्ति कौसू ५४, २२; ६८,
४०; १३६, १२; १४०, २१;
अप ७२, ४, ७; अशां १२, ६;
उपेप्सेत् गोगृ १, ९, ५.
उपा(प-आ)प्त- -प्तः आपश्री १९,
१३, १३; हिश्री २३, २, ४६;
हिध १, ४, ५; -प्तम् हिश्री ७,
६, ३४; लुसू २, ६ : ३१; निसू
४, ४ : १४; -प्तानि निसू ४,
१३ : १०; -प्ते निसू ३, ९ :
४४; -प्तौ लुसू ३, १० : ६.
उपा(प-आ)प्ति- -प्त्ये शाश्री १४,
२५, ४.

a) विप. । प्राप्त. । b) वैप १ द्र. । c) भाप., नाप. । गस. । d) विप. । बस. । e) ण्वि^०
इति पाठः? यनि. शोधः । f) पंस. उप. = अस्त्रच्छन्द- । g) = रोग-विशेष- । h) = अरुह- । व्यु. ? । i) स्वाश्वे
अण् प्र. । j) पाठः? यनि. शोधः ।

उपे(प-ई) पित्त- तम् पाण्ड २, १७, ९.
 उपा(प-आ)√बाघ् > उपा-बाघ-
 -घः बाघ्यौ ३, ६९ : २.
 †उपा(प-आ)√भूष्, उप...भा...
 भूष् आश्रौ २, २०, ४; ३, ८, १;
 ८, ९, २; (उप)भा...भूष् शाश्रौ
 १०, १०, ४; ११, ५; आपश्रौ १२, १, २; १४, ९; १९, १७, ८; बौश्रौ
 ७, ६ : ३६; १४, १५ : ४; माश्रौ
 २, ३, ५, ४; वैश्रौ १५, १५ : ५;
 हिश्रौ ८, १, १५; ४, ९; २२, १,
 १९; (उप)भा(भूष्) काश्रौ ९,
 ६, ६; ऋश्र २, ७, ९२; शुश्र १,
 ४४३; चाश्र १३ : ५.
 उपा(प-आ)√मन्त्रि (<मन्त्र-), उपा-
 मन्त्रयेत् अप ४४, १, ८; २, १.
 उपामन्त्रयां/कृ > उपामन्त्रयाञ्चके
 वृदे ५, २०.
 उपाय-, उपायन- उपे(प/इ) द्र.
 †उपा(प-आ)√या, उप...आयाहि
 शाश्रौ १८, १९, ६; (उप)आयाहि
 आश्रौ ७, १२, १; शाश्रौ ११, ४,
 ९; (उप)भा (याहि) माश्रौ
 ५, २, ११, ९; वाश्रौ ३, २, ८, ८;
 ऋश्र २, १, १७७; ३, ४३.
 उपायि-, यिन-, यु- उपे(प/इ) द्र
 उपा(प-आ)√रुह्, > उपा-रुह् आण्ड
 ३, १२, १२.
 उपा(प/अ)र्ज्, उपाजयेत् विघ १८,
 ४२.
 उपा(प-अ)र्जित- तम् विघ ५८,
 ११.
 †उपादीहयित्वैतदन्वैः वैश्रौ २०, ५ :
 १.
 उपा(प-अ)र्ध्- -र्धम् आपश्रौ १५,

२, ७; भाश्रौ ११, २, १५; वैश्रौ
 १६, ४ : २; हिश्रौ ११, १, ४४.
 उपा(प/अ)र्ध् > उपा(प-अ)र्ध्व काश्रौ
 १७, ६, ३.
 उपा(प-आ)√लभ्, म्भ्, उपालभन्ते
 हिश्रौ १६, ८, १२; उपालभेत
 आपध १, ८, २८; हिघ १, २,
 ११६.
 उपालभ्यन्ते या १, १४.
 उपा-लभ्य- -भ्यः आश्रौ ८, ६, ४;
 काश्रौ २२, ५, १४; २४, २, ९;
 काश्रौसं ३० : १८.
 उपा-लभ्म- -म्भः हिश्रौ ३, १, ४;
 -म्भम् वाश्रौ ३, २, ३, २३.
 उपा-लभ्य, म्भ्या- -भ्यः शाश्रौ
 ११, १३, ८××; काश्रौ; -भ्यम्
 आपश्रौ ९, १९, १५××; बौश्रौ;
 -भ्यस्य शाश्रौ १७, ५, ९;
 -भ्या शाश्रौ १४, २, १५××;
 बौश्रौ; -भ्याः शाश्रौ १४, २,
 १४××; बौश्रौ; -भ्यौ शाश्रौ
 १४, १३, १; १७, ७, ८; बौश्रौ
 १६, १९ : १४; १७, ५९ : ११.
 †उपा(प/अ)व्, उपावतु कौस् २०, ५;
 उप...भवतम् बौश्रौ ९, १७ :
 २१; उपावत कौस् ३३, ८;
 उप...भवत आपश्रौ ४, ८, ३;
 भाश्रौ ४, १२, १; हिश्रौ ६, २,
 १९; उप(अवत) शुश्र ३, १८०.
 †उपा(प-अ)वी- -वीः काश्रौ ६,
 ३, १७; माश्रौ १, ८, ३, २; वाश्रौ
 १, ६, ४, ३; शुश्र १, ३७७.
 उपा(प-अ)व्/दो(अवखण्डने), उपा-
 वद्येयुः लाश्रौ १०, ११, १५.
 उपा(प-अ)व्/नम् > उपाव-नत-
 -तः भाश्रौ ७, १, ९; -तम्

आपश्रौ ७, १, १७; भाश्रौ ७,
 १, ९; माश्रौ १, ८, १, ४; वाश्रौ
 १, ६, १, ७.
 उपा(प-अ)व्/रुह्, उपावरोहति
 शाश्रौ १८, २१, ६; बौश्रौ ११,
 १० : १; ११ : १८; १२ : ७;
 †उपावरोहन्तु आपश्रौ १०,
 ३०, १५; भाश्रौ १०, २१, १४;
 †उपावरोह^d शाश्रौ २, १७, ८;
 आपश्रौ ५, १०, १२; ६, २८,
 १२; १०, ३०, १५; बौश्रौ
 १४, १९ : ३९; भाश्रौ ६, ६,
 ११; १०, २१, १४^२; माश्रौ
 १, ६, ३, ५; ६; वाश्रौ १, ५,
 ४, ४७; वैश्रौ १, १० : ११;
 २, ११; १०; ११; हिश्रौ ३,
 ८, १२; ७, ३, ४५; वैताश्रौ २४,
 १८; शाण्ड ५, १, ७; आमिण्ड
 ३, ९, २ : ५; बौपि २, ५, ५;
 ३, ८, १; वैण्ड १, ९ : ८; ३,
 ६ : ७; ६, १६ : १४; हिपि
 २२ : ४^२; कौस् ४०, १३;
 वैध २, १, ८; ३, ८, ४;
 उपावरोहेत् हिश्रौ ६, ६, २५;
 उप...अवरोहेत् आपश्रौ ६,
 १९, ६^१.
 उपावरोहयते बौश्रौ १४, १९ :
 ३९; वैश्रौ २, ११ : ११; हिश्रौ
 ३, ८, १३; उपावरोहयति आपश्रौ
 ६, २८, १२; हिपि २२ : ४;
 ६; कौस् ४०, १३.
 उपाव-रोहण- -णम् शाण्ड ५, १, ७;
 आमिण्ड २, ७, २ : ३३^२; भाण्ड
 ३, ३ : १४.
 उपाव-रोह्य शाश्रौ २, १७, ८;
 आपश्रौ.

a) गस. उप. भावे षच् प्र. । b) अस. । c) वैप १ द्र. । d) पासे. वैप २, ३ सं. तैत्रा २, ५,

†उ(प>)पा-वसु^१-सुः माश्रौ १, ३, ४, १०; वाश्रौ १, ३, ६, ५.

उपा(प-अ)व/सृज्, उपावसृजति
बौश्रौ ९, ९ : ८; २४, २४ : २;
माश्रौ ११, ९, ७; वैश्रौ १३,
११ : १०; उपावसृजन्ति बौश्रौ
१५, ७ : १९; †उपावसृजन्तु^२
आपश्रौ १५, ९, ६; बौश्रौ ९, ९ :
८; माश्रौ ११, ९, ७; माश्रौ ४,
३, ६; वैश्रौ १३, ११ : ९; हिश्रौ
२४, ४, ३; उपावसृज या ८,
१७†.

उपाव-सृज्य आपश्रौ १५, ९, ६.

उपाव-सु(ष्ठ>)ष्टा-ष्टा आश्रौ ३,
११, १ : ७.

उपा(प-अ)व/हृ, उपावहरते आपश्रौ
१८, १८, १; ३; वैश्रौ १७,
१४ : ६; हिश्रौ १३, ६, १३;
१४; उपावहरति आपश्रौ २,
१३, ४; १२, ३, १३ ××; बौश्रौ;
उपावहरतः आपश्रौ ११, १२, २;
उपावहरन्ति बौश्रौ ९, ३ : ४;
१०, ४ : २३; उपावहरामि
बौश्रौ १८, १७ : १५†; उपा-
वहरेत् बौश्रौ १६, ६ : १३;
२१, १६ : ८; २६, १४ : ९;
द्राश्रौ ११, ४, ७; लाश्रौ ४, ४, ७.

उपावहरिष्यन्ते बौश्रौ १५, ८ : १.

उपाव-हरण^३-णम् हिश्रौ २४,
६, ११; -णस्य मीसू १०, ६,
७९; -णात् आपश्रौ १५, १५,
१; २१, ५, ३; -णे बौश्रौ २१,
१६ : ६.

उपावहरणी-गोम् वैश्रु

५, ४ : ३४.

उपावहरण-काल-ले हिश्रौ
१६, २, ५.

उपावहरणीय-यम् आमिष्ट ३,
४, २ : ९; ५, ७ : १३; बौपि
१, ६ : ८; ३, १२; हिपि ६ : ६.

†उपाव-हृत-तः वैताश्रौ १६, ५;
अप्राय ३, २.

उपाव-हृत्य शाश्रौ १७, १६, ५;
आपश्रौ.

उपा(प-अ)वृत्, उपावर्तते आपश्रौ
४, १५, ४; २१, १४, १२; वाधूश्रौ
३, १८ : ११; वैश्रौ ७, १३ :
७; आपध २, ७, १०†; हिध २,
२, ३१†; उपावर्तन्ते आपश्रौ
११, १७, ७; बौश्रौ ७, १४ :
२६; ८, ४ : १५; १२ : २४;
वाधूश्रौ ४, ४७ : ११; वैश्रौ १५,
३० : २; हिश्रौ ८, ७, ३१;
†उपावर्तध्वम् काश्रौ ९, ११,
३××; आपश्रौ; उपावर्तत
आपश्रौ १७, २४, ४; बौश्रौ
१०, ५९ : २५; २५, ३२ :
३८; वैश्रौ १९, ८ : ५.

उप(आवर्त्येतः) तैप्रा ४, २४†.

उपावर्तय काश्रौ १०, १, १८†.

उपा-वृत्^४-पावाग ३, ३, १०८°;
-वृत्तः कौसू ७२, १४.

उपावृत्^५-सिन्धु-सौवीर-राः
बौध १, १, २९.

उपा-वृत्त-तः बौध २, १०, ४५†.

उपावे(प-अव/इ), उपावैति आपश्रौ
६, ९, १†.

उपा(प-अ)वृत् > उपा-शंसन-

> नीय-यः या १, ६.

उपा(प-अ)वृत् > †उपो(प+उ)-
आशृण्वत्-ण्वते शाश्रौ ८, १६,
३†.

उपा(प-अ)वृत् > उपा-श्रित-तः
वृदे ३, १७.

उपाश्रित-शरीर-रः शाश्रु ४,
८, १०.

उपा-श्रित्य शंघ ५; बौध ३, ३, २२.

उपा(प/अ)सू (भुवि), उपा...अस्तु
माश्रौ १, ४, ३, २†.

उपा(प/अ)सू(क्षेपणे), उपास्यति
काश्रौ ४, १, १६××; आपश्रौ
११, ८, २†; उपास्यन्ति शाश्रौ
८, २, १३; काश्रौ १०, ५, ११;
माश्रौ २, ५, १, ३५; हिश्रौ ९, ५,
५३; जैश्रौ १८ : १६; उपास्येत्
आपश्रौ ५, ४, १५; १६; बौश्रौ;
उपास्येयुः आश्रौ ५, १७, ५.

†उपा(प-अ)सन, ना^६-नाः माश्रौ
५, २, १२, २४; -नात् बौश्रौ
२५, २९ : ६; -ने बौश्रौ १४,
१५ : १३†; २३, १४ : ७.

२उपा(प-अ)सन^७-नेभ्यः वैताश्रौ
२२, २२†.

‡ओपासन^८-नान् बौश्रौ
२१, २२ : ३४; ३५; -नेभ्यः
शाश्रौ ७, ७, ९; -नेषु बौश्रौ २१,
२२ : ३३.

उपासन-वत्-वन्तः बौश्रौ ८,
१२ : ४२.

उपासना(न-अ)तिप्रदान-नम्
वाश्रौ १, ४, २, २०.

उपासना(न-अ)थं-थाः बौश्रौ

a) वैप १ द्र. । b) पामे. वैप १, ९, ५५ k द्र. । c) भाप., नाप. । d) भाप. । e) तु. पागम. । f) = देश-विशेष- ।
g) °हृत्य इति मैसू. । h) पामे. वैप १ परि. उपा...अस्थित खि ३, ११, १ टि. द्र. । i) पामे. पृ २३२ a द्र. । j) भावे
कर्मणि च ह्युट् प्र. । k) = पिण्ड- (तु. शाश्रौ [७, ७, ९] भाष्यम्, ८, २, १३ प्र. च), = पुरोडाश-शकल- (तु. सप्र. काश्रौ
१०, ५, ११) । गस. उप. कर्मणि प्र. । l) औपा° इति C. शोधः [तु. ZDMG ५८, ५०८] । m) स्वार्थे षष्ठी च. ।

२४, १४ : ८.
 उपा(प-अ)स्त- -स्तम् आपश्चौ ५,
 १०, ४; वैश्रौ १, १० : २; हिश्रौ
 ३, ३, ३६.
 उपा(प-अ)स्य आपश्चौ ५, १०, ६;
 बौश्रौ.
 उपा(प-अ)स्यत्- -स्यन् आपश्चौ
 ७, ५, ४.
 उपा(प/अ)स्, उपासन्ते बौध २,
 ८, १४.
 उपास्ते काश्रौ ७, ६, ३; आपश्चौ
 १, ९, १०; बौश्रौ; उपास्ते शाश्रौ
 १८, २४, २८; आपश्चौ ११, २०,
 २; बौश्रौ; उपास्महे वाधूश्रौ
 ३, ३९ : २१; पाग ३, २, २;
 ऋउपासताम् आश्रौ २, ११, ८;
 बौश्रौ २, १८ : २१; हिश्रौ ६,
 ५, १६; ऋउपास्व बौश्रौ ८,
 १३ : २; १४ : १६; उपाध्वै
 वाधूश्रौ ३, ३९ : २१; उपासीत्
 आश्रौ ३, १२, ९; काश्रौ ९,
 १, १३; २५, ६, १०; बौश्रौ;
 उपासीयाताम् माश्रौ ३, ३, ६;
 अप्राय ४, ४; उपासीरन् वाधूश्रौ
 ३, ९ : ६; ७० : ९; द्राश्रौ ११,
 ४, २१; लाश्रौ ४, ४, २०; गोश्रु २,
 ७, १२; गौध ११, ७; उपा...
 आसीरन् वाधूश्रौ ३, ९ : ७; ८.
 उपासक- -कयोः निस् १०, १२ :
 १७; -काः कौस् ९२, २४^२.
 उपा(प-अ)सन^१- -नात् माग १,
 १४, ५; -ने आपश्चौ १५, २१,
 ११^१; भाश्रौ ११, २२, १४;
 वैश्रौ ८, २ : १४; आपध १,
 १५, १; हिध १, ४, ६०.

उपासन^२- -नः आपश्चौ ५,
 ७, ८; आमिगृ २, ७, २ : १;
 भाग १, १८ : १४; -नम् काश्रौ
 २१, ४, २५××; आपश्चौ; -नस्य
 पाग १, ९, १; बौगृ २, ९, ४;
 बौपि २, ४, ८; वैगृ ३, १८ : ५;
 ४, ६ : ११; मीस् १२, २, ४;
 -नात् आपश्चौ ५, ४, १२; भाश्रौ
 ५, ३, १; वैगृ १, ४ : १७; हिश्रौ
 ३, २, ३५; -ने आपश्चौ १, १०,
 १८; १८, १६, १४; बौश्रौ २४,
 ८ : ७; हिश्रौ २, ७, ६५; १३, ६,
 ३३; आमिगृ; बौपि २, ४, ३^१;
 -नेन आमिगृ २, ७, २ : २; ३,
 ७, ४ : १९××; बौपि; -नौ कौस्
 ६०, ६.
 औपासन-कल्प- -ल्पः भाग
 ३, ३ : १५^२.
 औपासन-तन्त्र- -न्त्रः
 आमिगृ २, ७, ३ : १५; १६.
 औपासन-निर्हरणा(ग-आ)-
 दि- -दि वैगृ ३, १५ : १६.
 औपासन-यज्ञ- -ज्ञम् वैगृ १,
 १३ : २, -ज्ञाय वैगृ १, ५ : १३^१.
 औपासन-वत् बौश्रौ २९,
 १२ : ७; वैध १, ६, ५.
 औपासन-श्रुति- -तेः काश्रौ
 १, १, २०.
 औपासन-हरण- -णम् वैगृ
 ५, १३ : २६.
 औपासन-होम- -मः वैश्रौ
 १, ७ : १६; -मम् वैध २, १, ५.
 औपासना(न-अ)ग्नि-
 -ग्निना वैगृ ७, १ : १४; -ग्निम्
 आमिगृ १, ६, ३ : ३८; २, १, ३;

१०; ५ : २; ३; वैगृ ४, ३ : ५.
 -गौ वैगृ ४, ६ : १०; ६, ३ :
 १०; १७ : ९.
 औपासनाग्नि-कुण्ड-
 -ण्डम् वैगृ ४, १० : ५.
 औपासनिक- -कस्य आमिगृ
 २, ७, ९ : ३; भाग ३, १८ : ५.
 औपासनीय- -यस् माश्रौ
 १, ५, १, १४.
 उपा(प-आ)सीन- -नः शंघ ३७९;
 ४४३; -नाः वाध १९, ४८;
 -ने शंघ ३५०.
 उपा(प-आ)स्य आमिगृ २, ४, १० :
 २; ६, ८ : ४२; ४५; ७, ११ : १९;
 वैगृ १, ३ : २१; ६, ८ : ७; अप
 ४, ५, ३; १८^१, ८, १; शंघ १५८;
 विध २४, ४०; वैध २, १०, ४.
 उपा(प-आ)स्य स्या- -स्यः अप ८,
 २, १; -स्यम् आमिगृ ३, ७, ४ :
 २९; -स्याः बुदे ८, १३०.
 उपा(प-आ)स्य सञ्ज, उपासजति
 हिश्रौ ७, ३, ६.
 उपा-सङ्ग- > °ङ्ग-दण्ड^०- -ण्डे
 कौस् १६, २५.
 उपा(प-आ)स्य सद् > उपा-सादित^१-
 (> °दितिन्- पा.) पाग ५, २,
 ८८.
 उपा-साध कप्र ३, ७, १२.
 उपा(प-आ)स्य सिच् > उपा-सेचम्
 कौस् १९, ४.
 उपा(प-आ)स्य स्तुप > उपा-स्तुप्य जैश्रौ
 २१ : ११.
 उपा(प-अ)स्तमन- > °मन-वेला-
 -लायाम् जैगृ २, ५ : ११.
 उपा(प-अ)स्तमय- -यम् काश्रौ ४,

a) भाप., नाप. = आमिगृह- । b) पाठः? औपासने इति O. शोधः (तु. संस्काररत्न-माला [पृ ३२०]) ।
 c) = आमि., यज्ञ- । वैप २, ३खं. द्र. । d) °नेन इति B. । e) = [विश्रामणार्थ-] ध्वज-दण्ड-? (तु. दारिद्रः) ।
 बस. पू. गस. । f) उपासित- इति [पक्षे] पागम. ।

७, १७; १२, ६, १; १७, ७, ४;
बौश्रौ २८, १२ : ३; माश्रौ २,
१, ३, २; ९.
उपास्ति^a- (> औपास्तिक-) पाग
४, ४, १२.

उपा(प-आ)√स्था, उपातस्थौ शांश्री
१५, १८, १; आ...उपतिष्ठन्ताम्
अप १६, १, १००[†].

उपा-स्थान- उपा- द्र.

उपा(प-आ)√स्पृश>उपा-स्पृश्य
भाश्रौ ११, २१, २.

उपास्यन् स्यात् बौपि २, ४, १५^०.

उपा(प-अ)√हन् > उपा-घ्नान, ना-
ना बौश्रौ ५, १६ : २३; -ना:
बौश्रौ ५, १६ : १९.

उपा(प-आ)√हृ, उपाहरति हिश्रौ
२४, १, २०; निस् ३, ४ : २४;
३०; ६, ८ : २८; ७, ६ : १२;
७ : २४; ३८; १० : २; १०, ३ :
२; वैश्रु ५, ४ : २३; उपाहरन्ति
वैश्रौ १२, ४ : १७; निस् ४,
१२ : ६; या २, २०; उप...
आहरन्ति वाधूश्रौ ३, ६९ : १७;
उपाहरामः निस् २, ११ : ३२;
उपाहरेत् शांश्री १८, २, ६;
द्राश्रौ ८, १, ४; निस् ५, १२ :
२४; लाश्रौ ४, ५, ४.

उपा-हरण-> णीय- -यम् वैश्रौ
११, १० : ३.

उपा-हृत- -तम् अत्र १०, ११[†].

उपा(प-आ)√ह्वे, उपाह्वयति कौसू ८८,
२९; उपाह्वयन्ते वैताश्रौ २०,
९; उपाह्वयथ आपमं २, १६,
२१^०; उप...आह्वये लाश्रौ ९, ९,

२१; उपाह्वयामि कौसू ८८,
२९[†]; उपाह्वय भाग २, ७; ८[†];
उपाह्वयथम् वैताश्रौ २१, १७;
उपाह्वयत हिगृ २, ७, १^०;
उपाह्वयेत् अप ४३, ६, ४;
उपाह्वयेमहि शांश्री १४, ५०, १.
उपाह्वयोत् आपय ४, २.

उपे(प√इ), उपायन्त वाधूश्रौ ४, ४५ :
८; ५३^२ : १.

उपैति काश्रौ २, १, ११ × ×;
आपश्रौ; उपयन्ति आश्रौ ५, १,
१२ × ×; शांश्री; हिध २, ३, ३९^०;
उप...यन्ति बौश्रौ १०, १० :
५; ऊपैमि शांश्री २ १३, २ × ×;
काश्रौ ४, १५, ४^०; आपश्रौ;
उपेमः बौश्रौ ६, ३० : १२[†];
ऊप (इमः)[†] आपश्रौ १२, १०,
२; वैश्रौ १५, ११ : १८; हिश्रौ
८, ३, ९; ऊप(एतु) शांश्री १८,
२१, ११^३, काश्रौ १३, २, २४^३;
उपेताम् शांश्री १५, २७, १^०;
ऊपयन्तु[†] आगृ ३, १०, ११;
भाग २, १३, ६; ऊप...यन्तु
शांश्री १८, २१, ११; काश्रौ १३,
२, २४; आपश्रौ ५, ६, ३; बौश्रौ
२, १४ : १४; हिश्रौ ३, २, ५३;
५४; ऊप(यन्तु) शांश्री २, २,
१७; १२, २; काश्रौ ४, ८, ४;
ऊपेहि शांश्री १५, २५, १; १७,
१२, ५; आपश्रौ १०, १७, ८;
बौश्रौ १४, १२ : ५; ६; ८;
माश्रौ २, १, ३, ४; वाधूश्रौ ४,
१०० : ६; १८; २६; वैश्रौ १२,
१३ : २; वागृ ५, १७; ऊप ...

इहि भाश्रौ ११, ९, १६;
वैश्रौ १३, ११ : १७; आश्रिगृ
३, ५, ६ : ६; बौपि १, ४ : २२;
ऊपेतन आपश्रौ ७, १७, ४;
बौश्रौ ४, ६ : ३८; ११, ४ : २२;
१५, २९ : १७; भाश्रौ ७, १३,
७; माश्रौ १, ८, ३, ३५; वाश्रौ
१, ६, ५, ६; वैश्रौ १०, १४ : १;
हिश्रौ ४, ४, २; ऊप...अयाम
शांश्री १४, ११, ८; ९; ऊ(उप)
अयाम आश्रौ ९, ८, १३; शांश्री
११, ८, ५; उपेयन् आश्रौ २,
१६, २२; २५; शांश्री; या १२,
१३[†]; उप...इयान् आपश्रौ
२२, १३, २; हिश्रौ १७, ५, २५;
उप(इयान्) आपश्रौ २२, १३,
२^३; हिश्रौ १७, ५, २५^३; उपे-
याताम् कौगृ १, १०, १८; पागृ
१, ८, २१; उपेयुः आश्रौ ६,
७, ७ × ×; आपश्रौ; उपेयाः
शांश्री १५, २५, १[†]; उपेयाम्
शांश्री १५, २५, १[†].
उपेयाय शांश्री १५, १९, १;
बौश्रौ १६, २७ : २५; वृदे ५, ७६;
ऊप...इयतुः आपश्रौ १२,
७, १०; हिश्रौ ८, २, ९; उपैयति
भाश्रौ १, ३, ७; रूप ५३, १,
२; उपैयत् निस् १०, ६ :
२१.

उपेयते या १२, १३.
उप-यत् -यताम् द्राश्रौ १, २, २१;
लाश्रौ १, २, १४; -यत्सु द्राश्रौ
७, १, १०; लाश्रौ ३, १, १०;
-यन् माश्रौ ४, ४, ४; बौध १,

a) तु. पागमः । उपवस्ति- इति भारुडा., उपस्ति- इति पाका. द्र. । b) पाठः ? उपास्यात् इति शोधः
(द्र. B.) । c) सपा. ०यत् <> ०यत् इति पाभे. । d) सपा. उपयन्ति <> एत्य इति पाभे. । e) पाभे.
श्रु ३२३ h द्र. । f) वैप २, ३खं. तैत्रा ३, ७, ९, १ टि. द्र. । g) पाभे. वैप २, ३खं. उपेता ऐमा ७, १८ टि. द्र. ।
h) पाभे. वैप १, ९५८ h' द्र. ।

२,५७†; -यन्तः द्राश्रौ १३,४,
११; लाश्रौ ५, ४, १७; वैताश्रौ
३१,१; जुसू २,४ : १९; या ९,
२३†.
उपा(प-अ)य- पाग ५, ४, ३४;
-यः लाश्रौ ९,४,१८; ९,२; निस्
८, ९ : १३; ११ : ५; कागृ
२४, १८; शंघ ६; मीसू ३,४,
३९; -यम् लाश्रौ ७, ६, १९; ८,
१९; निस् ८,११ : २२; आपध
२, १०, १०; हिध २,४, १०;
-यात् लाश्रौ ७,७, ३१; पागवा
५,४,३४; -यान् निस् ५,११ :
९; -येन बौश्रौ २९, ११ : १०;
आपध २, २०, १; हिध २, ५,
८८; मीसू ६,२,२४; -यैः शंघ
२५१.
औपयिक- पा, पावा ५,४,
३४.
उपाय-तस् (:) विध ५२,
१४.
उपाय-वत्- -वन्तः लाश्रौ ७,
६,५.
उपाय-विशेष- -वः आश्रौ २,
६,१९.
उपाय-सदृश- -शाः लाश्रौ ७,
६,३.
उपाय-समुद्देश- -शः वेज्यो
४३.
उपा(प-अ)यन^१- -नम् कागृ
४१,१; मागृ १,२२,१; आपध
१, १,६; -नानि भागृ १,२० :
१२^२.
उपायन-वत् आपगृ १६,४.

उपा(प-आ)यि^०-> ण्यि-बोदन-
-नात् मीसू ८,२,३१^१.
उपा(प-आ)यिन्-> ण्यि-स्व-
-स्वात् काश्रौ ३, ३, ८; ५,
१६.
†उपा(प-आ)यु^०- -यवः काश्रौ ४,
२,८; आपश्रौ १, २, २; बौश्रौ
१,१ : १०; २०,१ : ६२; २४,
१ : ९; भाश्रौ १, २, १२; अप
४६,३,३.
उपे(प-इ)त, ता- -तः कौगृ ३,६,५;
शांगृ; -तम् लाश्रौ ८, २, १८;
निस् ८,४ : ३१; आपध १,१९,
८; विध २०, ४५; हिध १, ५,
११०^१; -तस्य गोगृ २,८, २१;
आपध १, २, ११; हिध १,१,
४४; -ता लाश्रौ ७, ८, १९;
-ताः लाश्रौ १०, १२, ८; पागृ
३,२,१२; गोगृ ३,८, १२; द्रागृ
३,३,९; -तानाम् कप्र १,८,८;
-तानि निस् ३,१२ : ३४; -तैः
गोगृ ४,८,६.
उपेत-स्व- -स्वात् मीसू १२, १,
२०^६.
उपेत-पूर्व^२- -र्वस्य आगृ १,२२,
२४; कौसू ५५,६.
उपेत-व्रत^१- -तस्य वैश्रौ ३,३ :
१.
†उपे(प-इ)ति- -तिः आश्रौ ४,१३,
७^१; -तौ आश्रौ ४,६,३.
उपे(प-इ)त्य आश्रौ ११, ७, २;
शांश्रौ; आपध २,५,१५^६.
उपे(प-इ)यिवस्- -यिवान् पा ३,
२,१०९; -युषि पावा ३, २,

१०९.

उपे(प-ए)व्यत्- -व्यन् आपश्रौ ४,
३,१; माश्रौ ४, ७, १; गोगृ २,
१०,६.

उपे(प-आ-इ), उपेतः आपश्रौ ७,
१७,४; उपायन्ति हिश्रौ ४,४,
२; २६; ५,४,७८; (उप)भायन्ति
भाशि ५४; उपैमि अप्रा ३, १,
१६†; †उपेमसि^१ मागृ १, १,
१८; वागृ ५,३४; †उप (एम-
सि) आश्रौ ४,१०,३; शांश्रौ ५,
१४, ११; काश्रौ ४, १२, ७;
आपश्रौ ६,१७,७; १७,२४, १;
बौश्रौ ३, ८ : २६; भाश्रौ ६,
२,७; माश्रौ १,६,२, ९; ६,२,
६,२६; वाश्रौ १,५,४,११; वैश्रौ
१, ६ : ५; २, ७ : १२; १०,
१५ : ११; १९, ८ : १; हिश्रौ
४, ४, २६; ६,६,१६; १२, ७,
१३; शुअ १, १९१; साअ १,
१४; †उपैतु आश्रौ ८,१३,२७;
शांश्रौ १०, २१, १६; आपश्रौ
२१, १२, ९; बौश्रौ १६, ९ :
११^२; वाश्रौ ३,२,२,३५; हिश्रौ
१६, ५,३; वैताश्रौ ३४, ३; या
११, २९\$; अप्रा ३, १, १६;
†उप...पेतु आश्रौ २१,१२,९;
वाश्रौ ३,२,२, ३५; हिश्रौ १६,
५,३; वैताश्रौ ३४, ३; आगृ २,
१०, ६; पागृ १, १९, २; वागृ
१५, ३^३; अप १,३२,१०; ऋप्रा
४, ७३; या ११, २९†; उप
(एतु) वागृ १५, ३^३; उपायन्तु
कौसू ९८, २†; उप...भायन्तु

a) = उपनयन-संस्कार-। b) भाप.। c) इजाधा. निर्देशः। d) ष्यि-इति जीसं.। e) वैप १,
द्र.। f) पूर्वेण संधिरार्षः। g) उपेय इति कासं.। h) सुस्पृपीयः समासः। i) विप.। बस.। j) पाभे.
वैप १,६१५ k द्र.। h) सपा. उपेय <> गल्वा इति पाभे.। l) पाभे. वैप २, ३खं. आगाम् माश ११,५,४,१
टिं. द्र.। m) सपा. उप...पेतु <> प्रति...पेतु इति पाभे.। n) सपा. उप(पेतु) <> प्रति (पेतु) इति पाभे.।

वागृ १५, ३१; उप...आ...
यन्तु आश्रौ ५, १, १११; उपैहि
भाश्रौ १०, १०, १११; ऋउप...
एहि आपश्रौ १५, ९, १२; बौश्रौ
९, ९ : २३; माश्रौ ४, ३, १४;
हिश्रौ २४, ४, ४; वागृ १४, ३;
उप...आयाम वाधुश्रौ ४, २६^५ :
६.
उपैष्यथ भाशि १२०; उप-
(ऐष्यथ) भाशि ११५.
उपे(प✓ई) > उपे(प-एय) > या- -या
आगृ ३, ५, १७.
उपे(प-ई)क्ष्, उपेक्षते वृदे १, २२;
७६.
उपे(प-ई)क्षक- -कः वाध १०, २९;
-कस्य वाध १०, १७.
उपे(प-ई)क्षण- -णम् द्राश्रौ १, १,
२७; लाश्रौ १, १, २६.
उपे(प-ई)क्षा- -क्षाम् बौश्रौ १८,
२९ : २.
उपे(प-ई)क्षितव्य- -व्यम् या १,
१५; १७; २, ६; ७, ५; -व्याः या
१, ३; ११; १३, १३.
उपेत- प्रभृ. उपे(प✓इ) द्र.
उपे(प✓इ)न्ध्, उपेन्धते बौश्रौ १, ८ :
२०; ५, १ : २३.
उपेप्सित- उपा(प✓आ)प् द्र.
उपेयिवस्- उपे(प✓इ) द्र.
उपे(प✓इ)ष् (गतौ), ऋउपेष्^७ माश्रौ
१, ८, २, २८; वाश्रौ १, ६, ३, २५;
हिश्रौ ४, २, ७१.
उपैष्यत्- उपे(प✓इ) द्र.
उपोक-वती- उप✓वच् द्र.
उपो(प✓उ)क्ष्, उपोक्षति काश्रौ ६,
३, २९; बौश्रौ ४, ५ : २२;

भाश्रौ ७, १०, १२; वैश्रौ १०,
१० : १४; हिश्रौ ४, ३, २२.
उपो(प-उ)क्ष्य बौश्रौ ११, ३ : ३५;
वाश्रौ १, ६, ४, १८.
उपोढ- उप✓वह् द्र.
उपो(प-उ)त-परुष^८ -वाः शाश्रौ
१४, २२, २०; लाश्रौ ८, ५,
८.
उपो(प-उ)त्✓कृष् > त्-कृष्य कौस्
२०, ४.
उपो(प-उ)त्तम, मा^९ -मः आपश्रौ २०,
२४, ५; माश्रौ ५, २, ११, ४३;
४७; लाश्रौ ६, ८, १३; निस् १,
२ : १७; -मस् माश्रौ १, ४, १,
२८; ५, १, १, ११; द्राश्रौ ८, १,
३५; २, ४; लाश्रौ ४, ५, २८; ६,
४; ७, ३, ११; निस् १, १ : २३;
ऋप्रा १, ७४; १७, ३९; पा ६,
१, १८०; २१७; पावा १, २, ३७;
-मयोः जुस् १, ७ : १४; -मस्य
लाश्रौ ६, १२, १०; -मा वृदे ६,
८०; ७, ११९; -माः शाश्रौ १४,
२२, २४; २६; -मात् लाश्रौ ६,
१०, २९; निस् २, १२ : ३१;
ऋप्रा २, २८; -माम् आश्रौ ५,
१६, २; शाश्रौ ६, ७, १०; १०,
११, ८; काश्रौ १६, ४, ४१; बौश्रौ
८, २१ : ९; -मायाः आश्रौ २,
१, २६; ८, १, २१; -मायाम् वृदे
६, ४८; -मे आश्रौ ८, १, १२;
हिश्रौ ७, १, ४३; लाश्रौ १०, २०,
१२; वृदे ५, २६; ऋप्रा १३,
२५; अप्रा १, १, ५; -मेन कौस्
२६, ३४; ५०, १५; -मेभ्यः अप
४६, ९, १११; अत्र १९, २२१.

उपो(प-उ)त्तर > °रे-द्युस् (ः) बौश्रौ
२६, २१ : ७.
उपोत्था(प-उद्✓स्था), उपोत्तिष्ठति
काश्रौ २६, ५, १०; आपश्रौ;
उपोत्तिष्ठतः बौश्रौ ५, ६ : १;
गोय २, २, १; द्रागृ १, ३, १६;
उपोत्...तिष्ठन्ति पागृ ३, २, १४;
उपोत्तिष्ठेत् बौश्रौ २२, १७ : ७;
उपोत्तिष्ठेयुः हिश्रौ २, ६, ५५.
उपोत्थापयति आमिगृ १, ६, २ :
१०.
उपोत्-तिष्ठत्- -ष्ठन् कश्रौ २६, ४,
११; आपश्रौ १५, ८, १३;
बौश्रौ ८, ३ : ११; १० : ५;
१६ : १४; १७, ३५ : ११;
भाश्रौ ११, ८, १७; वैश्रौ १६,
२० : १२; हिश्रौ २४, ३, ६;
-ष्ठन्तौ आपश्रौ १५, ९, १०.
उपोत्-थान- -नम् आश्रौ ४, १२,
६.
उपोत्-थाप्य हिश्रौ ६, ४, १७; भागृ
१, ४ : १५.
उपोत्-थाय आश्रौ १, १०, ४४४;
शाश्रौ; हिघ १, ८, ५७.
उपोत्-थित- -तः शुप्रा ६, २९.
उपो(प-उ)दक- -के वीगृ ३, ९,
११.
उपो(प-उ)दय^१ -यम् आश्रौ २, ४,
२४; शाश्रौ २, ७, ३; आपश्रौ ६,
४, ९; १०, १७, २; २०, १२, १०;
बौश्रौ २८, १२ : १; भाश्रौ ६,
९, ७; १०, १०, १६; ११, ७;
माश्रौ २, १, ३, २; ९; -ये गो
१, ८; या १०, ५१.
उपो(प-उ)दात्त- -त्तम् उस् ८, १३;

a) सपा. उप...आयन्तु <> प्रति...आयन्तु इति पाभे. । b) पाभे. वैप १, १६० j द्र. । c) विप. ।
बस. > बस. उप. = [क्षितेषु-] इषुषि- [उत्त- < ✓वे] इति आनर्तायः C. च (वैत. उपोत्त- = कञ्चुकिन्- इति लाश्रौ.
आप्यम्) । d) विप. । प्राप्त. । e) पाभे. पृ ६४५ C द्र. । f) वैप १ द्र. ।

माशि ५, ७; ९; लाशि २, ७, ८;
-त्ते अप ३४, १, ३.
उपोदा(प-उद्-आ)✓ह, उपोदाहर-
न्ति पागृ १, १५, ८.
उपोदि(प-उद्✓इ), उपोदेति भागृ १,
२७ : १.
उपोदित^a-> औपोदिति^a- -ति:
बौश्री १८, २६ : ६; १५.
उपो(प-उ)द्✓गृह> ँद्-गृह्य आश्री
३, ११, ३; गोगृ २, २, १५.
उपोद्घृ (प-उद्✓धृ=✓ह), उपो-
द्धरति जैगृ २, ३:८; उपोद्धरन्ति
वैश्री २, ११ : ४; वैताश्री ५,
१३; कौसु ३३, १५; उपोद्धरेत्
बौपि २, ३, १८^b.
उपोद्-घृत्य माश्री १, ३, ५, ६.
उपो(प-उ)द्✓यच्छ, यम्, उपो-
द्यच्छते बौश्री १०, १५ : ११;
१२, १४ : ४; १६, ८ : ४; उपो-
द्यच्छन्ते आपश्री १२, २५, ९;
बौश्री; उपोद्यच्छन्ति आश्री ५,
६, १३; शाश्री ७, ५, ८; माश्री
२, ४, १, ४३; वाश्री ३, १, २, ३९;
उपोद्यच्छेत् आश्री ५, ६, १२;
उपोद्यच्छेरन् बौश्री २१, २० :
२९; २२ : १२; २३ : ६.
उपोद्-यस्य माश्री १, ३, १, २४;
५, ३, ७.
उपो(प-उ)द्>न✓नह्>न-नह-
-द्धम् या ६, १९.
उपोप्त-, उपोप्य, ँप्यमान- उप
✓वप् द्र.

उपोयमानम्^c आश्री ३, ६, २३.
उपो(प-उ)ल्लप, वज^d-पान् माश्री १,
६, ५, ६; वाश्री १, ५, १, ७;
-वै: वाश्री १, ५, १, ९; -वा:
भाश्री ५, १९, ८; -वानाम् कौसु
१८, ३३; -वै: आपश्री ५, २७,
११; हिश्री ३, ६, ११.
उपो(प✓उ)प्(दाहे), उपोपति आपश्री
१३, २४, १५; १५, ४, २; बौश्री;
उपोषन्ति कौगृ ५, ३, २७; उपो-
षेत् बौश्री १४, १३ : २३;
वैताश्री २३, ६ : ९; उपोषेयु:
आमिगृ ३, ६, २ : १२; १७; १९;
७, ३ : १२; ९, २ : १३; बौपि
१, १० : ५; ७; ९; १२; १५;
२, १, ६; ७; ६, १०; ११.
उपोपयति वैश्री १३, ६ : ९;
आमिगृ ३, ५, ८ : १०; उपोप-
येत् आमिगृ ३, ४, ४ : ३.
उपो(प-उ)पण- -णम् आमिगृ ३,
७, ३ : २२; बौपि २, २, २;
हिपि १९ : ९; -णात् आमिगृ
३, ६, १ : ११; बौपि १, ८ :
१०; -णाय वैश्री १३, ५ : ५.
उपो(प-उ)पस्^e- -वसि वैश्री २, २ :
१०.
उपोपित-, विवस-, ँप्य, ँप्यमाणा-,
उप✓वप् द्र.
उपो(प✓ऊ)ह् (गतौ), उपोहते बौश्री
१७, ४३ : ८; बौगृ १, २, १८;
उपोहति काश्री २, ५, ४; आपश्री
१, २०, ५; ३, १, १०××; उपो-

हन्ति शाश्री ४, १४, ३६; उपो-
हेत् बौश्री २०, ७ : ६; ११ :
१८; उपोहेरन् द्राश्री ९, १,
१८; लाश्री ३, ५, १९.
उपो(प-ऊ)हन- -णम् बौश्री २५,
३१ : ६; -नान् बौश्री २०, ६ :
२८; -ने बौश्री २०, ७ : ५;
१६ : ३७.
उपो(प-ऊ)ह्य शाश्री २, १६, २१;
माश्री ४, १, २१.
उपो(प-ऊ)ह्यमान- -नेयु शाश्री ५,
९, १०.
उप्त- प्रयु. ✓वप् द्र.
✓उब्ज^f पाधा. तुदा. पर. आर्जवे।
उब्ज- -ब्जम् गौपि २, ३, २६.
उब्ज-ककुभ^g- पा, पाग २, ४, ६८.
✓उभ्(बधा.) पाधा. तुदा. पर. पूरणे,
औभनात् ऋप्रा १४, ५३१.
उभ, भा^h- पाग १, १, २७; -भयो:
आश्री ७, ६, ६; ९, ६, ३^h; शाश्री
३, १९, १४; ११, १२, २; १३,
३३; १२, ११, २१××; काश्री;
पावा १, ४, २; ८०; २, १, ५७; ४,
८३; -भस्य पावा १, १, २७;
-र्ना आश्री ३, ९, ३; ४, ७, ४ⁱ;
६, ५, २४ⁱ; १२, १२ⁱ; ७, ६, २;
शाश्री २, ११, २; ५, १०, १८ⁱ;
६, १०, ९; ८, १०, १ⁱ; ९, २०,
३२ⁱ; १०, ३, ५; आपश्री १३,
१८, २ⁱ××; बौश्री ८, १८ :
५ⁱ××; १२, २ : १३^k; माश्री;
वैश्री १६, २२:५ⁱ; हिश्री ९, ४,

a) वैप १ द्र.। b) अपो^o इति R.। c) पाठः ?। = उदस्यमानम् इति गार्ग्यनारायणः। सप्र. तै १, ३,
११, १ बौश्री ४, १० : २९ उद्वासयति इति पाभे.। d) प्रास.। e) ✓उब्ज, उ×ज् इति BPG.। या ६,
८; ७, १२ परामृष्टः द्र.। f) विप.। कर्मणि घञ् प्र.। g) बहु. <औडिजकाकुभ-। h) ष्योः इति
आन. ?। i) पाभे. वैप १, ७६८ f द्र.। j) सपा. माश्री २, ५, ४, १३ महा इति पाभे.।
k) ङान्तम्। सपा. उभा <> उभयतः इति पाभे.। उभाकां^o इति समस्तः पाठः ? यनि, असमस्तः ङोचः
(द्र. संस्कृतः टि. पाभे. च)।

५८^०; वैताश्रौ २३, १५^०;
पाग २, ११, १२^०; माग २,
१, ७^०; शुभ्र^० ४, १६; १७;
या ६, ३३; -भाम्याम् आश्रौ
४, ७, ४; ८, १, १; शाश्रौ; वैगृ
१, २: १३^०; या १, ४; ४, ४; पा
४, १, १३; पावा २, २, ३६; -भे
आश्रौ १, ९, ५^०; ३, १, ५××; शाश्रौ
१, ६, ३^०××; काश्रौ; आपश्रौ
१३, २५, ३^०; आपमं २, १२,
६^०; पाग ३, १३, ३^०; आमिगृ
२, १, ४ : ७^०; हिगृ २, ३,
१०^०; या १, १; ८, १५^०; पाद्,
१, ५; २, १४०; -भौ आश्रौ २,
६, ४; ३, ७, १३^०; ९, ११, १९××;
शाश्रौ; वैश्रौ १८, १५ : १२^०;
आमिगृ १, १, ३ : ४०^०; ४:
३६^०; माग १, २४ : ८^०;
हिगृ १, ६, ४^०; ८, ४^०; २५, १६;
या ४, ४; ६, ३३; पा ८, ४, २१.

उभ-क्षेप- : पा याशि १, ६९; ७०.

१ उभय^०- पा ५, २, ४४; पाग १,
१, २७; ४, १, ४१; पावाग ५,
४, ४४^०; -यः बौश्रौ २१, ५; २५;
अदां ११, २; पावा १, १, २७;
-यम् आश्रौ ७, ३, १८; ४,
४; ऋशाश्रौ; आपश्रौ १४, ३०,
३^०; बौश्रौ २९, ५ : ७^०; हिश्रौ
१५, ७, २०^०; या १, ४; ५;
पावा २, २, ३४; -यस्य काश्रौ
२२, ९, १४; आपश्रौ ४, ७, १^०;
माश्रौ ४, ९, ४^०; हिश्रौ ६, २,
१६; वाघ १९, ५; या ६, ६^०;

२२; -यात् शौच ४, २१; -यान्
काश्रौ २२, १०, २०; बौश्रौ ११,
११: ५××; वाधूश्रौ; -यानि
शाश्रौ ३, १०, २; ११, १२, ६;
बौश्रौ; या ८, ७^०; -ये आपश्रौ ८,
१३, ५^०; बौश्रौ १४, २३: १^०××;
वाधूश्रौ; -येन बौश्रौ ११, ८ :
२६; १३, ३९ : ५; २२, ३ :
२२; ३०; ९ : २७; २३, ७ : २६;
१० : ३; -येभ्यः बौश्रौ ६,
५ : ३१^०; -येवाम् आपश्रौ
१०, २०, १०^०; बौश्रौ २६,
१७ : १०; वाधूश्रौ ४, ९४^०;
३; ६; लाश्रौ ६, ५, १७; ९, ४,
८; निस् १, ९ : २४-२७; ६,
४ : २; ९, ९ : २८; गो २,
३४; ऋप्रा ११, ५०; भासू १,
१७; पा ६, १, १७; -येषु बौश्रौ
१६, ३ : २८; निस् १, ९ :
११; ४, ३ : ३२; ८ : ७;
गोय ४, ५, १६; ऋप्रा १३, ३८;
-यैः आपश्रौ १८, ५, १६; बौश्रौ.

उभयो- पा ४, १, ४१;

-योः शाश्रौ १३, २०, १५;
काश्रौ २२, ५, १७; आपश्रौ ५,
२८, १९; १२, ६, ३^०; १९,
१५, १३^०; २२, ७, १३; बौश्रौ
१, ९ : ६; १७, ४० : २३;
२०, ८ : ३०; माश्रौ ५, २०,
१३; वाश्रौ १, ५, १, १८; हिश्रौ
६, ५, ३९; १७, ३, १२; २३, ३,
३३; वैगृ ६५ : ८; आमिगृ १,
३, ३: ८; बौगृ २, ४, ७; -योभिः

आपश्रौ १६, ३, ५; वैश्रौ १८,
१ : ४१; हिश्रौ ११, १, ३१;
७, ४०^०; अप्राय ६, २^०; -योम्
आगृ ३, ८, ५; बौगृ ११ : १२;
या १३, ९; -योषु काश्रौसं ३२ :
८; हिश्रौ २, २, २.

१ औभय- यम् निस् ६,
८ : ६.

उभय-काम- मः आगृ १, ७,
५; ३, ८, ५; वैगृ ६५ : ८;
गोय ४, ५, १६.

उभय-कार्य-प्रसङ्ग- ऋः पावा
१, १, ६७.

उभय-गामि-त्व- त्वात् मीस्
९, ३, ९^०.

उभय-चोदन- नात् काश्रौ
२२, ६, ८.

उभय-तसः() आश्रौ ३, १, २;
५, १९, २; ९, ३, २०; १२, १३,
३; शाश्रौ १, ६, ६; १४, २८, ८;
९; १५, ६, ६^०; ७^०; १४, ८;
१६, २२, २९; १७, १०, ४;

काश्रौ १, ९, २०; ३, ४, १; ४,
४, २४; ५, १०, १८; ६, ३, ३;
८; ८, ३, १९^०; २५; ९, ११,
१; १३, ११; १०, ६, ८; १४, १, २;
१५, ९, २०; १६, २, ५^०; २२, १०,
३०; ३१^०; २४, ४, ३८; २५,
११, ६; आपश्रौ १३, १३, २०;

१५, १९, २; काठश्रौ १०; बौश्रौ
३, १७ : ३; ७; ११; ४, ६ : ५८;
८, १४ : २१; ९, १८ : ८;
२५; ११, २ : १७; १३, २० :

α) पाभे. पृ ७३६ k द्र. । b) अभिः > अमी इति कृत्वा वा. द्र. । c) उभ्या^० इति पाठः? यनि.
शोधः । d) पाभे. वैप १, ९६२ f द्र. । e) पाभे. वैप १ परि. अवताम् शौ ७, १३, १ टि. द्र. । f) पाठः? उभे
इति शोधः (तु. सपा. मै २, ७, १२) । g) पाभे. वैप १, ९६२ & द्र. । h) वैप १ द्र. । i) तु. पागम. ।
j) पाभे १, ९६३ h द्र. । k) प्यभागात्वा इति जीसं. प्रभृ. । l) त्वा, वीद्व्या = उभयतः-क्षयः । m) पाभे.
पृ ७३६ l द्र. ।

५; २१, २१ : ९; २५, १८ :
८; माश्रौ ११, १९, ११; माश्रौ
३, ६, १६; ५, २, १५, ५; ६,
१, १, ८^०; वाधुश्रौ ४, १५ : ६;
२३:७; ६८:७; वाश्रौ १, ७, ४,
७४; हिश्रौ १६, ६, २; २१, २,
३४; द्राश्रौ ४, १, ७; लाश्रौ २, १,
६; लुसू; अप ५, २, ४; ९, ४,
१४^b; १९, १, ८^c; पावा २, ३,
२; ४, ७; ४, २, १३; ५, ४, ४४^d.

उभयत-एत^० - तम् आपश्रौ
२१, २३, १२.

उभयतएनी- नी
आपश्रौ २२, १५, ८; हिश्रौ १७,
६, २४.

उभयतः-काल- ले कौगृ
५, ४, ५.

उभयतः-क्षुत्^० - क्षुत्
लाश्रौ ८, २, ६^०.

उभयतः-क्षू^f - क्षू^g
हिश्रौ ११, १, ११; १७, १, १३;
-क्षूम् आपश्रौ १६, १, ७;
बौश्रौ ९, १ : २; वैश्रौ १३,
१ : ७.

उभयतः-पक्ष, क्षा^h - क्षान्
माश्रु २, १३, ८; -क्षाम् वागृ ८, ९.

उभयतः-परोक्ष-पृष्ठ^h - ष्टः
लुसू २, ११ : १.

उभयतः-पाश, शा^h - शम्
माश्रौ २, १, २, ७; कौसू ३३, ६;
-शा काशु ७, १३; -शाम्
काश्रौ १६, ८, १; बौश्रौ १९,
१ : १५; आपशु १, ११; १५,
९; बौशु १ : १०; १७; २३;

२८; ३ : १८; हिशु १, २१;
५, १४; -शेन कौसू ७६, ७.

उभयतः-प्रउग, गा^० - गाः
काश्रौ १६, ५, ९; काशु ४, १;
हिशु ४, २९; -गाम् बौश्रौ १७,
२८ : १६; हिश्रौ १२, ८, ७;
काशु ४, ८; आपशु १२, ६; ९;
बौशु २ : १६; १५ : १; २;
हिशु ४, २८; -गाः हिशु ४,
३०; -गे काशु ४, ६.

उभयतः-प्रण(व >)वा^h-
-वाम् बौध २, ४, ७.

उभयतः-फ(ल >)ला^h-
-लाम् गोगृ २, ६, ६; द्रागृ २,
२, २०.

उभयतः-शि (क्य >)
क्या^h - क्या विध १०, ३.

उभयतः-शिरस^h - राः
बौश्रौ २६, ३२ : १४^०.

† उभयतः-शुक्र, का^h-
-क्रम् आपश्रौ १२, २६, ४;
बौश्रौ ७, १५ : २०; माश्रौ २,
४, १, ५२; वैश्रौ १५, ३३ : १३;
-काः बौश्रौ ७, १३ : ९; २१,
१५ : ६; २५, १७ : १; -क्रान्
बौश्रौ ७, १३ : ६; ८, ४ : १;
माश्रौ २, ४, १, ४; वैश्रौ १५,
२७ : १२; १६, ४ : ११; हिश्रौ
८, ७, १; ९, २, ५.

उभयतः-संश्रायिन्^० - यि
तैप्रा १६, २५^०.

उभयतः-सस्य^h - स्यात्
आगृ १, ५, ५.

उभयतः-सुजात^h - तम्

कौगृ १, १०, ७; वागृ १, १६, ८.
उभयतः-स्तोभ^h - भम् निसू
३, १० : १; -भाः लाश्रौ ७,
५, १४; -भाम् निसू ६, ७ :
१०; -भे लाश्रौ ७, १, १४; -भौ
लाश्रौ ७, २, ३.

उभयतः-स्वर-स्व(र >)
रा^१ - राः क्रपा २, ८०.

उभयतो(तस्-अ) तिराभ^h-
-त्रः काश्रौ १२, ६, २७; बौश्रौ
२६, १२ : ३; ५; वैताश्रौ ४२,
१६; निसू ९, ९ : १५; -त्रम्
काश्रौ १२, १, ६; -त्राणि
आपश्रौ २३, १, ३; बौश्रौ २६,
१२ : ४; हिश्रौ १८, १, २.

उभयतो-दत्^h - दग्निः
बौध १, १, २०.

उभयतोदत्-केश्य (शि-
अ) लोमै(म-ए) कशफ-कलविक्र-
पुव-चक्रवाक-हंस - साः गौध
१७, २६.

उभयतोदद्-युक्त- -क्तः
गौध २८, ५.

उभयतो-दन्त^h - न्तान् शंघ
४२०.

उभयतो-द्(शा >) श^h-
-शम् काश्रौ ९, २, १७.

उभयतो-नमस्कार^h - राः
शुअ २, २६२.

उभयतो(तः-अ) प्य(न्त >)
न्ता^१ - न्ते वाधुश्रौ ३, ६९ :
४१.

उभयतो-बाहृत^h - तानि
निसू २, ३ : ७.

a) *तः, तीक्ष्णाम् = उभयतः-क्षूम् । b) पाभे. पृ ७३६ I टि. द्र. । c) पूर्वेण संघिरार्धः । d) तु. पागम. ।
e) वैप १ द्र. । f) विप. । उस. । g) क्षू इति पाठः ? यनि. शोषः । एतदनु पृ २२७ अन्यतरतः क्षु (त >)
वा-> -ताम् इति निर्देशश्च शोषोपेक्षः । h) विप. । बस. । i) विप. (विवृति- L द्विषन्धि- J) । बस. > बस. ।
j) विप. (आनाय-रज्जु-) । बस. (तु. संस्कृतैः टि. ष्यन्ते) । C. तु उभयतः, अल्पन्ते इति शोषपूर्वकः द्वि-पदः पाठः ।

उभयतो-भाग^१- -गात्रि अप
१,५,६.

उभयतो(तस्-अ)भित्त
(नं>)ना^१- -नाम् बौश्री १८,
४० : १६; २२.

उभयतो-मद - -दम् बौश्री
८, १३ : २०; २१, २३ : २१.

उभयतो-मुख^१- -खे काश्री
१, २, १३; आपश्री १२, १, १३;
काठश्री ११६; माश्री २, ३, ५, १५;
वैश्री १५, २:८; हिश्री ८, १, २४.

उभयतोमुखी- -खीम्
विध ८८, ४.

उभयतो-मोद^१- -दः आपश्री
१४, ३, ४; -दम् आपश्री १३,
१३, ८; १५, १४; बौश्री ८,
१५ : ४; १७, ४ : ४; २१, २३ :
२१; वैश्री १६, १५ : १३; १९ :
४; १७, ३:५; हिश्री ९, ४, ३५.

उभयतो-राथन्तर^१- -राणि
निसू २, ३ : ८.

उभयतो-लक्ष्मन्^१- -क्षमा
आपश्री २४, १३, ९.

उभयतो(तस्-अ)लंकार^१-
-राः आपश्री ६, ३, ३; -रात्
हिश्री ३, ७, १३.

उभयतो-विष्टर^१- -रम् वागृ
११, १६.

उभयतो-ह्रस्व^१- -स्वः शुप्रा
१, ११६; ४, १३५.

उभय-त्र आपश्री ८, १, १२; शाश्री;
पावा १, १, ४४; ६७; २, १, ५५;
३, १, २६; ६, ३, २५.

उभय-स्व- -स्वम् मीसू १०, ३,
३३; -स्वे मीसू ४, ३, ४.

उभय-था बौश्री २६, १२ : ३;
निसू; पा ३, ४, ११७; ६, ४, ५;

८६; ८, २, ७०; ३, ८; पावा ३,
१, ३१.

उभय-दर्शन- -नात् पावा १, २,
६४.

उभय-दी(र्व>)र्वा^१- -र्वा
माशि ९, ३.

उभय-दोष- -वे आश्री ३, १०,
२७.

उभय-द्युस(ः)पावा ५, ३, २२;
पाग १, ४, ५७^७.

उभय-धर्मन्^१- -र्मा मीसू १२, २,
२६.

उभय-निमित्त^१- -त्व- -त्वात्
पावा १, १, ५७.

उभय-नियम^१- -मात् पावा ३,
१, २; ६, २, १४८.

उभय-निर्देश- -शात् पावा १,
३, ७८; ४, २, ३४; -शे पावा १,
१, ६७.

उभयनिर्देशा(श-अ)र्थ- -र्थम्
पावा ८, २, ८६.

उभय-नीत- -तस्य बौश्री २३,
१६ : ३.

उभय-नेत्र-भेदिन्- -दिनम्
विध ५, ७१.

उभय-पक्ष-द्वादशी- -शीषु
विध ४२, ५.

उभय-पद-वृद्धि- -द्धिः पा ५,
१, १२४.

उभय-पान- -नात् मीसू १०, ४,
४९.

उभय-पृष्ठ- -ष्ठे बौश्री २५, २२ :
१०.

उभय-प्रकार- -रे जैश्रीका २१३.

उभय-प्रतिषेध- -धः पावा १,
१, ५६.

उभय प्रदेक्ष- -शात् मीसू १०,

७, ५२.

उभय-प्रघा(न >)ना- -ना या
५, १२; १०, ३.

उभय-प्रसङ्ग- -ङ्गः पावा १,
४, २.

उभय-प्राप्ति- -सौ पा २, ३, ६६;
पावा २, २, १४.

उभय-भक्ति-मिश्र- -निधन^१-
-नम् निसू ६, ४ : २१.

उभय-भागि(न>)नी- -न्यः
बौश्री २५, ३४ : ६.

उभय-भाव्य-त्व- -त्वात् मीसू
८, २, १९.

उभय-वाचिन्->°चि-त्व-
-त्वात् पावा १, २, ७२.

उभय-लिङ्ग, ङा^१- -ङा या २, ८;
-ङैः कौसू ६०, १५.

उभय-वत् भाश्री ८, १५, ७.

उभय-वत् - -वत्सु वृदे ३, ३१;
-वन्ति माश्री ३, ७, ४; वृदे २,
१५५; या ८, २२; -वान् शुप्रा
१, ११०.

उभय-विकार- -रः मीसू ८, २,
१९.

उभय-वि(धा>)घ, धा^१- -धः
बौश्री २६, १२ : १; २० : ७;
२२ : १; -धाः या ७, ७; -घानि
निसू २, ११ : २.

उभयविध-निधन^१- -नम्
निसू ६, ७ : ४१.

उभय-विवृद्धि-प्रसङ्ग- -ङ्गात्
पावा ८, २, १०६.

उभय-विशेषण-त्व- -त्वात्
पावा २, १, ५७; ७, २, १०.

उभय-वृद्धि- -द्धिम् आपध १,
३, ९; हिध १, १, ८१.

उभय-व्रत- -तम् कागृ ४१,

२३१.

उभय-क्षेप- षम् काश्रौ ९,४,१

उभय-श्रुति^a- -ति मीस् ३,३,
१०.उभय-संयोग- -गात् पागृ २,
१७,७.उभय-संस्कार- -रः मीस् ३,२,
१४.उभय-संज्ञा- >ञित- -ताः
अप्रा २,३,२८.उभय-संज्ञा-त्व- -त्वस्य पावा
१,१,४५.उभय-सामन्^a- -म शाश्रौ १०,

९,१; ११,२,१; लुसू २,१५:२०;

-मसु निस् ६,७:४१; -मा

आश्रौ ५,१५, १६; ८,५,२; ९,

३,८; १०, १, ५; ११,३, १०;

शाश्रौ ११, १०, १; ११, २;

आपश्रौ १२,१४, २; २२,२,५;

८; बौश्रौ १८, ७: १३; हिश्रौ

१७,१, २३^३; २६; लाश्रौ १०,

१३, ८; निस् ६, ३: ४; ७,९:

१९; -मानः लुसू २, १: ९;

निस् ४, १२:२४; -मानम्

शाश्रौ १४,१३,१२; बौश्रौ १६,

१४: ५; द्राश्रौ ८,१, ६; लाश्रौ

४,५, ७; -मानौ आश्रौ ९, ८,

९; आपश्रौ २२,१२,३; हिश्रौ

१७,५, १७; -म्ना आपश्रौ १०,

२,६; २२,१०,६; १२,१७; हिश्रौ

१७,४,४; २३; ५,२९; लुसू २,

६:२९; -सिन शाश्रौ ७, २१, १;

हिश्रौ ८,४,३; निस् २,११:३;

मीस् ९,२,४९; १०,५,५९; ६,

२४.

भौमयसाम्य- -म्यम्

निस् ७,७:१५; ९:२७; १०:

६; ८, २:१९; -म्यात् निस्

३,३:१७.

उभयसाम-तन्त्र- -न्त्रम्

निस् ६,२:२३; ७,११:२६.

उभयसाम-व्रत- -तम् निस्

९,१२:३१.

उभय-सामर्थ्य- -र्थ्यात् काश्रौ

५,१,६.

उभय-स्वरिता(त-अ)भि

(धा>)घ- -घः कौशि २८.

उभय-हेतु-संग्रह- -हात् ऋप्रा

११,४.

उभया^b>°या-क(र्ण)>र्णि-,

°या(या-अ)ञलि- पाग ५,४,

१२८.

उभया-दत्^b- -दत् काश्रौ

२५,८,१५; बौश्रौ १३,९:१०;

-दत्तः शुप्रा ३, १२९; ५, २१;

-दति, -दन् अप्रा ३,४,११.

उभया-द(न्त>)न्ति-,

°या-पाणि-, °या-बाहु- पाग ५,

४,१२८.

उभया-लोह-कवच^a- -चानाम्

वाधूश्रौ ३,७९:२.

उभया-ह(स्त>)स्ति- पाग

५,४,१२८; -स्ति या ४,४१.

उभया(य-अ)तिपत्ति- -त्तौ

काश्रौसं ३१:१३.

उभया(य-अ)देश-स्व- -स्वात्

पावा १, १,५७.

उभया(य-अ)नुगमन- -ने काश्रौ

२५३,२५.

उभया(य-अ)नुग्रह- -हः मीस्

६,५,५२.

उभया(य-अ)नुमत- -तः विघ

८,९.

उभया(य-अ)न्तर्य- -र्यात्

पावा १, १,५०.

उभया(य-अ)भाव- -वे काश्रौ

८,९,९; १०, ९,१६.

उभया(य-अ)र्थ- -र्थम् मीस् ४,

३,३०.

उभया(य-अ)र्धा(र्ध-अ)र्ध-
संयोग- -नो शैशि १९१.

उभ(य>)याविन्- पावा ५,२,

१२२; -विनम् अप्रा ३,४,१.

उभये(य-इ)च्छु- -च्छुः काश्रौ

१८,५,१३.

उभये(य-इ)ज्या-नियोग- -गात्

निस् ७,८:२०.

उभये-द्युस् (:) पा ५, ३, २२;

पाग १, ४,५७°.

उभये(य-ई)पिसन-त्व- -त्वात्

पावा १,४,४९.

उभयो(य-उ)दय- -यम् ऋप्रा

५,५२.

उभयो(य-उ)दात्तक- -कः कौशि

२६.

उभा^d>°भा-क(र्ण)र्णि-, °भा-

(भा-अ)ञलि-, °भा-दन्ति-,

°भा-पाणि-, °भा-बाहु-, °भा-ह

(स्न>)स्ति- पाग ५,४,१२८.

२उभय-(>२औभय-), औभय-

अभयजात- टि. द्र.

?उभयीरुहम् अप ४०,३,९.

?उभिपता वाश्रौ ३,२,६,४१.

उमा^e पाउभो २,२, २४५^f; पाग ५,१, ३९^g; फि ५७^g; -मकप्र २, १०, ७^f; अप ४०, ४,३^g; -माम् जैरु २,९:१४^f.भौम^h, भौमक- पा ४,३,१५८.

a) विप. । बस. ।

b) वैप १ द्र. ।

c) तु. पागम. ।

d) उभया इत्यनेन स-न्यायता द्र. ।

e) अप्रा. । व्यु. (तु. वैप ३) ।

f) = [देवी-विशेष-] गौरी- । <✓म्व इति ।

g) = अतसी- ।

औमिक- पा ५, १, ३९.
 औमीन- पा ५, २, ४.
 उमा-कट- पावा ५, २, २९.
 उमा(मा-अ)भि-भर्तृ- -र्तृणाम् कप्र
 २, १०; ९.
 उमा-फल- -लानि कौसू ३३, १७.
 उमा-सूत्र- -त्रम् शंघ २३५^११.
 उम्य- पा, पावा ५, २, ४.
 उम्बि^b- (> औम्भेयक- पा.) पाग
 ४, २, ९५.
 √उम्भ^c पाधा. तुदा. पर. पूरणे।
 उम्भिति- पावा ७, २, ९^d.
 उम्भि-(> १ औम्भेयक- पा.) उम्भि-
 टि. द्र.
 उरण^e- पाउ ५, १७; पाग ३, १,
 २७^d; -णः बौश्रौ १८, ४५ : ५;
 या ५, २१^f१; -णम् बौश्रौ
 १८, ४५: ११^११; विध २०, ४२;
 -णौ वाधुश्रौ ३, ८६ : ५१.
 उरण-मथि^१- -थिः या ५, २१.
 √उरण्य पा ३, १, २७.
 १ उरन्ध्रे^१ आपश्रौ १४, १७, ३; हिश्रौ
 १५, ५, ३.
 उरन्ध्र^१- पा ४, २, ३९; -ध्रम् आमिगृ
 २, ५, १० : १०; २०.
 उरन्ध्री- -न्ध्री आमिगृ २, ५,
 ११ : २.
 औरन्ध्र^k- -ध्रम् शंघ २२२;
 -ध्रेण अप११, ५०, २; विध ८०, ४.
 औरन्ध्रा(अ-अ)जिन- -नम्
 बौश्रौ २६, ३२ : २९.
 औरन्ध्रक- पा ४, २, ३९.

उरन्ध्र-मांस- -सेन अशां १३, ४.
 उररी(^१री √कृ पा.) पाग १, ४, ६१
 उरल^१-(> उर(ल्य >) ल्या- पा.)
 पाउभो २, ३, ९९; पाग ४,
 २, ८०^m.
 उरन्- , श-(यथाक्रमम् > १ औरन्धा-
 यनि-, १ रशी-पा.) पाग ४, १,
 १५४ⁿ; १७८^o.
 उरन्धा- उरसा- टि. द्र.
 १ उरस्^१- पाउ ४, १९५; पाग ३, १,
 २७; ५, २, १००; १२७; ३, १०३;
 १०८; ४, १५१; -रः शाश्रौ ४,
 ११, ६; १७, १२; २१, १९; ७, ४,
 ४; ८, ९, ७; काश्रौ १५, ७, ४; २१,
 ४, १३; २५, ९, १३^१; आपश्रौ;
 पा ६, १, ११७; -रः सु द्राश्रौ
 ६, ३, २८; लाश्रौ २, ११, २१;
 -रसः आपश्रौ १५, १५, १;
 भाश्रौ ११, १५, १५; वाश्रौ ३,
 २, ५, ३४; हिश्रौ २४, ६, १२;
 कौसू ५८, १^१; अप २२, २, ३;
 माशि १, ११; नाशि १, ५, ५; ६;
 भासू ३, २२; पा ५, ४, ९३;
 -रसा शाश्रौ १७, १६, १; काश्रौ
 १७, ४, १०; द्राश्रौ १०, ४, ९;
 लाश्रौ ३, १२, ८; ७, १२, ५; अश्र
 ११, ३(२)^१; -रसि शाश्रौ ४,
 १४, २०; १५, १४; काश्रौ;
 -रसी अप ४१. ६, ४; -रांसि
 शाश्रौ ५, ८, ४.
 १ औरस- पा ४, ४, ९४; -सः
 वाध १५, ९; शंघ २९१; विध

१५, २; वृदे ८, ११३; याशि २
 ५८; -सम् बौध २, २, १४; ३१;
 पाशि १६^११; याशि २, ५७^१;
 ६३; -सस्य शंघ २६९; २९१;
 -साः विध १५, ३४; -से बौध
 २, २, ११; -सौ याशि २, ९४;
 १ औरसी- -सी वाध २,
 ५; बौध १, ११, ३१.
 औरस-कण्ठ्य-मूर्धन्य-दन्त्यो-
 (न्य-ओ) छय-तालव्य-दन्तमूली-
 य-जिह्वामूलीय-यमा (म-अ) जु-
 स्वार- -राः याशि २, ९४.
 औरस-क्षेत्रज-दन्त-कृत्रिम-गू-
 ढोल्पन्ना(ञ-अ)पविद्ध- -द्धाः
 गौध २८, ३३.
 औरसा (स-आ) च (दि-अ)
 भाव- -वे गौध २८, ३५.
 औरसिक- पा ५, ३, १०८.
 औरस्य^१- -स्यम् शैशि ३३९^१.
 उरः-कण्ठ-भ्रूमध्य- -ध्यानि शुप्रा
 १, ३०.
 उरः-कवाट- पाग २, १, ६६^d.
 उरः-प्रजनन-छेद- -दे अप ६८, २,
 ११.
 उरः-प्रभृति- -तिभ्यः पा ५, ४,
 १५१; -तीनाम् आशि ८, १.
 उरः-प्रमाण^१- -णम् कागृ ४, ९.
 उर-ग^१- पावा ३, २, ४८; -गाः
 कप्र २, १, १६; -गान् सु ८, ५;
 -गैः अप १, ३८, ९; अशां ८, २-
 १ उरस- पा ५, २, १२७.
 उरसि √कृ पा १, ४, ७५.

a) पाठः ? ऊर्णा इति शोषः ? (तु. संस्कर्ता) । b) अर्थः व्यु. च ? । उम्भि- इति भाण्डा., औम्भि- इति [पक्षे] पागम. । c) पावा ७, १, ५९ परामृष्टः द्र. । d) तु. पागम. । e) = भेष- । f) वैप १ द्र. । g) वैतु. स्क. उर- + णः प्र. इति । h) उरु इति पाठः ? यनि. शोषः (तु. बौश्रौ १८, ४५: ५) । i) = उरा-मथि- । j) = उरण- । व्यु. ? । k) विप. । तस्येदमीयः ञ् प्र. । l) अर्थः व्यु. च ? । m) = देश-विशेष- ? । n) उरन्धा- इति [पक्षे] भाण्डा. । o) उरन्धा-, उरन्धा- इति पाका. । p) ष्यम् इति चौसं., उरन्ध्रम् इति पटनासं. । q) सप्र. ष्यम् <> ष्यम् इति पामे. । r) विप. । तत्रमवीयः ष्यः प्र. उंसं. (पा ४, १, ८५) । s) विप. । बस. । t) = सर्प। वैप ३ द्र. ।

उरसि-गृह्ण^० कौसू ८१, ३०१।
 उरसिल- पा ५, २, १००.
 उरस-तस (>) आमिगृ ३, ९, १ :
 १०; बौपि २, ६, २; बौध २, ८,
 २३; पा ४, ३, ११४.
 ऋउरस-पेश^० - शान् आपमं २,
 १४, १; आमिगृ २, १, ३ : २१;
 भाग्य १, २३:१४; हिगृ २, ३, ७.
 √ उरस्य पा ३, १, २७.
 उरस्य- पा ४, ३, ११४; ४, ९४;
 ५, ३, १०३; -स्यौ ऋप्रा १, ४०;
 आशि १, ८.
 उर:-शिरस^० -रः कौसू ४७, ४५.
 उर:-सम- -मम् आपध १, ५, १६;
 हिध १, २, १६.
 उर:-संमित- -तः बौश्रौ २०, ३ : ९.
 उर:-स्थ- -स्थः अप ४७, २, ६.
 उर:-स्थित- -तेन माशि ४, ५.
 उरो-गम^० -माः सु ४, ४; २९, ३.
 उरो-देश- -शाम् आपश्रौ २४,
 १२, ७.
 उरो-बृहती^० -ती निसू १, २ :
 २१; ऋअ १, ७, ३; २, १०, ८५;
 शुअ ५, ४४?; अअ १, १; ३,
 ५; ६, १०८; १४०; १०, १; ११,
 ५; १९, ९; ऋप्रा १६, ४६; पि
 ३, ३०; उनिसू १ : २८.
 उरो(रस्-अ)भिमर्शन- -नम् शाश्रौ
 १०, २१, ५.
 उरोभिमर्शनी- -नी शाश्रौ ७,
 ५, १५.
 उरो-हृत्-कण्ठ-शिरो-हृत्- -तः

नाशि १, ५, ११.
 उरो-हृद्^० -हृदि नाशि १, ५, १०.
 २उरस्^० - -स- (यथाक्रमम् >)
 १बौरसायनि-, २बौरसी-
 उरश्- टि. द्र.
 उरस-लङ्कट- उत्तर-शलङ्कट- टि. द्र.
 १उरस- १उरस्- द्र.
 ३उरस- उरसा- टि. द्र.
 ४उरस- पाउभो २, ३, १७४.
 उरसा^० - पा, पाग ४, २, ८२^१ (>
 २बौरस- पा.) पाग ४, ३, ९३^१.
 १उ(र>)रा^० - > उरा-मथि^० - -थिः
 ऋया ५, २१०; -थयः वाधुश्रौ
 ४, २८ : ६.
 २उ(र>)रा^१ - > उरा-सुत->
 बौरासुत- -तस्य चाअ १६:१०.
 ऋउराण^० - णः अप ४८, ११५; निघ
 ४, ३; या ६, १७०.
 १उरु^० - पाउ १, ३१; पाग ५, १,
 १२२^३; -रवः आश्रौ ३, ८,
 ११; -ऋ^० आश्रौ ५, १९, ३^२;
 ८, १२, ७; ऋशाश्रौ ८, ४, ३^३;
 २१, १; २२, १; १०, १३, १९;
 १४, २४, ५; काश्रौ; कौसू
 ४७, २५^०; अअ २, १२^३; निघ
 ३, ११; या १, १५१; ५, १३; ६,
 १७; २६१; २७१; ९, २०१; ११,
 १५; -ऋः आश्रौ २, १९, ३२;
 शाश्रौ ३, १७, १; काश्रौ २५, ६,
 ७; लाश्रौ ४, १, ५; कौसू ६१, ३७;
 ६८, २७; अअ ११, २; १३, ४
 (६); या ५, १३३; -रुणा वैश्रौ

१६, १८:१८; -रुम् आश्रौ ३,
 ७, ११; ५, ३, २१; ७, ४, ७; शाश्रौ
 ३, १४, ६०; ६, १०, ७४; काश्रौ;
 अअ १९, १५^१; -ऋषु आपश्रौ
 ११, ९, १^१; हिश्रौ ७, ५, ३५;
 वैताश्रौ ४, २०; १३, ५; अपं ३ :
 ३८; -ऋरो आपश्रौ ७, १५,
 १०; माश्रौ १, ८, ३, २७; वैश्रौ
 १०, १३ : ३; हिश्रौ ४, ३, ५०;
 शुप्रा २, २०; -ऋरो शाश्रौ १८,
 १८, ७; काश्रौ; -ऋरी शाश्रौ ३,
 ५, ५; ७, ३, १; आपश्रौ; या
 १२, ४३१; ऋप्रा १७, ४३१;
 -वोः कप्र ३, २, ११.
 ऋउर्वी - -र्वि आपश्रौ ५, १, ७;
 आपमं २, १३, ३; -र्वी आश्रौ ४,
 १३, ४; ५, ३, १८; शाश्रौ; निघ
 १, १; ३, ३०; -र्वी आश्रौ १,
 २, १; शाश्रौ १, ६, ४; आपश्रौ
 ६, २२, १; १७, २१, ८; बौश्रौ
 ३, २८ : १; १७, ४२ : १२;
 हिश्रौ १२, ६, २६; २१,
 १, २; २, २१; या २, २६;
 -०र्वी आपमं २, ९, ६; आमिगृ
 १, ३, ५ : १३; भाग्य २, २२ :
 १५; वैगृ ३, ५ : ८; हिगृ १,
 २२, ११; -र्वीम् आपश्रौ ५, २,
 १; ४; कौसू १०६, ७; -र्व्यः अप
 ४८, ७६^१; निघ १, १३^१; या २,
 २६०; -र्व्या वैश्रौ १८, ७:२८;
 आपमं २, ११, ३१; -र्व्याः वाश्रौ
 १, ४, २, २; -र्व्याम् वृदे २, ५७, ५.

a) उरसि गृह्णे इति पाठः? यनि. शोधः (तु. संस्कृता)। b) विप.। उस. उप. कर्तरि < √ पिघ।
 c) समाहारे द्रस.। d) = सर्प-। उस.। e) = छन्दो-विशेष-। बस. पूष. = मध्य-। f) पुरो इति पाठः?
 यनि. शोधः (तु. ऋअ १, ७, ३ प्रस्य.)। g) व्यप.। व्यु. ?। h) = नगरी-विशेष-। व्यु. ?। i) उरसा-
 इति पाठा.। j) ३उरस- इति पाठा.। k) वैप १ द्र.। l) = ऋषिपत्नी-विशेष-। व्यु. ?।
 m) उरु- इति पाठा.। n) क्वचित् द्वि१ सत् वा. क्वि.। o) पामे. वैप १, १६७ d द्र.। p) उरु इति
 पाठः? यनि. शोधः। q) रुम् इति पाठः? यनि. शोधः। r) = नदी-।

१ औरव- पा ५, १, १२२.

उरुकर- रम् या ९, २०^३; ङ.१ उरुक्रम^१- ङ०म^१ आपश्रौ १२,

२१, १२; बौश्रौ ७, १३ : ३;

माश्रौ २, ३, ८, २४; वैश्रौ १५,

२७ : १०; हिश्रौ ८, ६, २५; ङमः

माश्रौ ६, १, ५, २२; वागृ ४,

३; -मम् माश्रौ ५, १, ९, ३५;

-माय माश्रौ ५, १, ९, ३४;

हिश्रौ १३, ६, ३९.

२ उरुक्रम^२- -मे माश्रौ २, ३, ८,
२३ ङ.उरुक्षय^०- -यः ऋअ २, १०, ११८.

औरुक्षय- -०य आपश्रौ

२४, ७, ८; बौश्रौ २६ : ४;

हिश्रौ २१, ३, १०; -यम्

लाश्रौ ७, ३, ११^६.

उरुक्षय-वत् आपश्रौ २४, ७, ८;

बौश्रौ २६ : ४; हिश्रौ २१, ३,

१०.

उरुक्षयण^०- -णः या ९, ३.उरुक्षयस^०- -०स आश्रौ १२, १३,
२.उरुग^१- ङमः आपश्रौ ६, १९, १६;हिश्रौ ६, ६, १७^{३६/१६}; -गस्यआपश्रौ ६, १९, ११^६; -गाः

सु ४, ५.

१ उरुगव्युति^१- -ती आश्रौ १,

९, १; शाश्रौ १, १४, ४.

उरुगाय^२- ङ०य^२ काश्रौ ९, ९,

१९; वाधुश्रौ ३, ५३ : २; -यम्

अअ २, १२^१; -यस्य या २,

७ ङ.

उरुचकि^१^१- -किः ऋअ २, ५,
६९; साअ २, ३३५.१ उरुचक्ष^१^१- -क्षाः आपश्रौ १६,
१२, १; वैश्रौ १८, १० : ९;
हिश्रौ ११, ४, १३.१ उरुचयस^१^१- -यसम् आपश्रौ ५,
६, ३; हिश्रौ ३, २, ५६.उरुचि^१^१- -०चयः या १२, ४३ ङ.१ उरुणस^१^१- -सौ^१ हिपि १८ :
१०; अअ १८, २.

उरुतर- रम् या ८, ९.

उरुता- -ता तैप्रा २२, १०.

उरुत्व- -त्वेन या ८, १०.

१ उरुद्रप्स^१^१- -प्सः आपश्रौ ९,
१९, ५; बौश्रौ १४, १४ : ३०;
वैश्रौ २०, ३७ : ९; हिश्रौ १५,
८, १८.उरुधा(र >)रा^१^१- ङरा शाश्रौ ४,
११, १; काश्रौ ३, ३, १२; बौश्रौ

१, २१ : ८; ३, २० : ७; १६, २६ :

२; वाश्रौ १, ३, ७, २१; नाशि

२, ३, ५^६; -राम् नाशि २,३, ५^६; -रायाम् याशि २,

३३.

उरुप्रथस^१^१- -थाः काश्रौ २, ५,
२० ङ.उरुबिल^१^१- -लम् बौश्रौ ९, ३ :
३०; १०, ६ : ७; वैश्रौ १८,
१ : ८०.

उरुभूत- -तम् या ११, २१.

उरुयुग^१^१- -गे निस् २, ११ :

३० ङ.

उरुवासि(न >)नी^१^१- -नी वृदे २,
५९.१ उरुव्यचस^१^१- -वसम् आमिगृ ३,
८, २ : ३१; बौपि १, १५ : ३९;

-चसा अअ ५, २७; -चाः

आपश्रौ १०, १०, ६; भाश्रौ १०,

७, १; हिश्रौ १०, २, ५५;

जैश्रौ १३ : १९; आगृ ३, १०,

६; शागृ २, १८, ३; अअ ३२,

१, १४; अअ ५, ३.

उरुव्र(ज >)जा^१^१- -०जे आश्रौ ३,
८, ११ ङ.१ उरुशंस^१^१- -०स माश्रौ २, ४,
१, ४५; वाश्रौ २, २, ५, ७;

वैताश्रौ १९, १८; आपमं १, ४,

१३; आमिगृ १, ५, ४ : ६.

उरुशर्मन्^१^१- -र्मणाम् हिश्रौ ८,
६, ३३ ङ.उरुस्थान- -नाय वाधुश्रौ ३,
७६ : ५.१ उ(र >)रुणस^१^१- -सौ^१ आश्रौ
६, १०, २०; ऋप्रा ९, १०.उर्व(र-अ)व^१^१- > १ उरुवी^१^१- -ची
अप ४८, ६०; -चीम् आश्रौ २,

१, २९; शाश्रौ २, २, १४.

१ उर्विया^१^१ या ८, १० ङ; अप्रा ३,
४, १.२ उरु^१^१ > २ औरव- -वः ऋअ २,
१०, १३८; साअ २, ११६६.३ उरु^१^१ > उर्व(र-अ)स्थि- > ० स्थि-
कुलिम-मात्र^१^१- -त्रम् हिश्रौ १,

a) वैप १ द्र. । b) पाभे. वैप १, ९६९० द्र. । c) = ऋषि-विशेष- । व्यु. ? । d) = साम-विशेष- ।

e) उस. पूष. = अन्तरिक्ष- । f) विप., नाप. [सु.] । उस. उप. < √ गम् । g) सपा. मै १, ५, ४; ११ उरुकुः

इति पाभे. । h) पृ ३६० a L हिश्रौ. सकृत्] शोधः द्र. । i) उरु^१ इति पाठः ? यनि. शोधः । j) = ऋषि-विशेष- । k) विप. । बस. । l) सपा. उरु^१ (तैप्रा ६, ३, २ च) < > उरु^१ [वैप १ अपि] [द्र.] इति पाभे. ।

m) शायाम् इति लासं. । n) = उर्वशी- । उस. । o) पाभे. वैप १, ९७१ ज द्र. । p) = ऊरु- । व्यु. ? ।

q) विप. । दस. > बस. ।

२, ३७^३.उर्वस्थि-मात्र^१ - -त्रः बौश्रौ २४,
२५ : ३^३.उर्वस्थिमात्री - -व्यः आपश्रौ
१६, १३, ६.उरुञ्जिरा^० - -रा या ९, २६.उरुण्ड^१ - -ण्डाः अप्रा ३, ४, ११.

उरुबुक - पाउभो २, २, २९.

उरु(म् >) ष^१ - > ष^१ / उरुण्य^०,उरुण्यति अप ४८, १४^२; या

११, ८; उरुण्यथः या ११, ८;

उरुण्यतु बौश्रौ २, १९ : १३;

१३, ९ : २; १६, १८ : ११;

हिश्रौ २२, २, २४; उरुण्य >

प्या आपश्रौ ६, १७, ८; बौश्रौ

७, ६ : २२; या ५, २३; ऋप्रा

७, ३३; शुप्रा ३, ८६; १०७;

पा ६, ३, १३३.

ः उरुक^१ - -कम् आपश्रौ ३, ३, १; शांश्रौ
५, १७, ९; -केण मीस् ९, ४,
२१.√ उर्जा = √ अर्जा > उर्ज - > उर्क -
कर - -रम् या ९, २०.उल, ऊर्दी^१ - (> उल, ऊर्दी - पा.) पाग
४, १, ४१.१ उर्व^१ - -वैः अत्र १६, ३१.२ उर्व^१ - पाग ४, १, १०४.१ और्व - पा ४, १, १०४; -०र्व
हिश्रौ २१, ३, ७^२; -वैः हिश्रौ
१, ४, ९.१ और्व-भृगु-वत् हिश्रौ २२,
६, २१^१.उर्व-वत् हिश्रौ २१, ३, ७^३.उर्व(र >) रा^१ - -रा आश्रौ ९, ७, १३;
काश्रौ २२, ३, ४०; आपश्रौ ९,
१५, २१; हिश्रौ १५, ४, ४०; लाश्रौ
८, ३, ४१; -राम् आश्रौ ३, १४,
९; आपश्रौ ९, १५, २०; भाश्रौ
९, १८, ८; १०; माश्रौ ३, १, २३;
वैश्रौ २०, ३२ : १०; हिश्रौ १५, ४,
४१; पाग २, १७, ९; कौस् ५१,
१७; ६६, १७; -रायाम् पाग २,
७, १५; कौस् २४, २.उर्वरा(रा-आ)दि - दि काश्रौ २२,
३, ५१.उर्वरा-मध्य - -ध्ये कौस् ३८, ९;
५१, १६; १९.ः उर्वरी^१ - -री आपश्रौ ५, ८, ७; हिश्रौ
३, ३, ३; -रीः, -०रीः,
-रीणाम् कौस् १०७, २.उर्वशी^१ - पाग ५, २, ६१; -ः शी
काश्रौ ५, १, २४; आपश्रौ ७,
१२, १३; बौश्रौ ४, ५ : ८;
१८, ४४ : २; ९; ४५ : ३१;
२०, २७ : १०; भाश्रौ ७, ९
१३; माश्रौ १, ५, ३, १; ७,
१, ४०; वाश्रौ १, ६, ४, ८;
वैश्रौ ८, ५ : १३; हिश्रौ ४,
३, ९; कौस् ६९, २०; अप
४८, १३९^१; ष^१बुदे १, १२८; २,
७७; ८३; ७, १४७; शुअ १,
२९६; ष^१निष ४, २; ५, ५;
या ५, १३०; ११, ३५; ३६;
४९; -शीम् ऋअ २, १, १६६;
१०, ९५; बुदे ५, १४९; ७,
१५१; -ः श्या आपश्रौ १०,२३, ६; बौश्रौ ६, १३ : ११;
भाश्रौ १०, १५, १५; वैश्रौ १२,
१७ : ५; हिश्रौ ७, २, ३१;
-श्याः ऋअ २, १०, ९५; या
५, १४^१.और्वश - पा ५, २, ६१; -शः
बुदे २, ३७; ४४; १५६.उर्वश्या(शी-आ)त्मज - जाय वाध
३०, ११.ः उर्वारि, रू^१ - पाउभो २, १, १०१;
-र्वाः अप्रा १, ३, १४.ः उर्वारि-क^१ - -कम् आपश्रौ ८,
१८, ३; बौश्रौ ५, १६ : २०;
२४; भाश्रौ ८, २१, १०; माश्रौ
१, ७, ७, ७; वाश्रौ १, ७, ४, ७२;
हिश्रौ ५, ५, १८; द्राश्रौ १३, ३,
३^२; लाश्रौ ५, ३, ७; वैताश्रौ ९,
१९; काग २५, ३७; या १४,
३२.१ उल, ऊर्ल^१ - उलः^१ ऋअ २, १०,
१६३; १८६; बुदे ८, ८८; साअ
१, १८४; ष^१उलेन^१ आपमं २,
२२, ६३; भाग २, २७ : १६^२;
उलेन हिग १, १४, २^१।२ उल^१ - उलहुल^१ - (> उल्य^१ -
उलहुल्य^१ - पा.) पाग ४, २,
८०.√ उलण्ड, पाधा. चुरा. पर. उल्लेपणे.
उलन्द^१ - (> औलन्दक^१ - पा.) पाग
४, २, ८०.१ उलप^१ - पाउ ३, १४५; -पानि
वाधुश्रौ ३, १९ : ७; -पेषु अप्रा ३,
४, ११.

- a) परस्परं पाभे. । b) विप. । बस. । c) = विपाश्- [नदी-विशेष-] । व्यु. ? । उरुजला - इति
दु. । d) वैप १ द्र. । e) या ५, २३ परामृष्टः द्र. । f) कुर्द - इति पाका. । g) = ऋषि-विशेष- । व्यु. ? ।
h) सपा. और्व <> और्व (< २ उर्व -) इति पाभे. । i) सपा. और्व <> और्व (< २ उर्व -) इति पाभे. ।
j) सप्र. उर्व <> उर्व इति पाभे. । k) = ऋषि-विशेष- । l) परस्परं पाभे. । m) अर्थः व्यु. च १ ।
n) नदेश-विशेष- ? ।

उलप-कक्ष- -अम् वाधुश्री ३, १९:८.
 उलप-राजि, जो^२- -जिभ्याम् माश्री
 १, ७, ३, ४५; जैगृ १, १: २०;
 -जिम् माश्री १, २, १, २; १९;
 ८, १, २४; २, २, २, १२; ३, ६,
 १३; वैश्री ४, १: ५; मागृ १,
 १४, ४; -जी माश्री २, ४, ४,
 १९; ५, १, २४; -जी: माश्री ८,
 ११, १२; लाश्री ८, ८, ३३;
 आमिगृ ३, ५, २: १८; बौपि १,
 २: २१; हिपि २: ५; -जोम्
 आपश्री १, १५, ४; भाश्री १,
 १७, ४; १२, २, १४; हिश्री १,
 ४, २२; ४, २, २५; ५, ३, ५; ७,
 २, ५; ४, ९; ९, ५, ३; १२, ५,
 १५; १३, ८, ३; कागृ २८, १;
 वागृ १५, १५; -ज्या काश्री
 २५, ३, ७; माश्री १, २, १, १७.
 २उलप^१- (<औलपिन्- पा.) पाग
 ४, ३, १०४.
 ३उलप^२->औलपि->औलपीय-
 पा.) पाग ५, ३, ११६.
 उलल^८- -ले बौश्री २, ५: १६५.
 उल्लुम्बर, ल^१- -र: हिगृ २, ७, २५^०;
 -ः^० आपमं २, १६, २;
 भागृ २, ७: ९; -लौ हिपि
 १८: १०.
 णउल्लु, ल^१लि^१- -लय: द्राश्री ११,
 २, १०; लाश्री ४, २, ९; अप्रा
 ३, ४, १.
 १उल्लूक^१- पाउ ४, ४१; पाग ४, २,
 ४५; -क: आपश्री १५, १९,
 ४^२५; बौश्री ९, १८: १६५;
 भाश्री ११, १९, १३^२५; मागृ २,
 १७, १५; अप ६७, ३, १; ७०^३,

६, ९; काष २७६: ५; -के
 बौश्री २, ५: ८५; -कै: अप
 ६४, ७, ५.
 १औल्लूक- पा ४, २, ४५.
 उल्लूक-त्व- -त्वम् अत्र ८, १.
 उल्लूक-प(त्र)>त्रा^१- -त्रया कौसू
 ३५, २८.
 उल्लूक-पाक- पा, पाग ७, ३, ५३.
 उल्लूक-पु(च्छ->)च्छी^१- पावा ४,
 १, ५५.
 उल्लूक-प्रतिगर्जन- -नम् अप ७२,
 ३, ७.
 णउल्लूक-यातु^१- -तुम् वृदे ६, ३२;
 अत्र ८, ४.
 उल्लूको(क-उ)ल्लूकी^१- -की बौश्री ९,
 १८: १५,
 २उल्लूक^१- पाग ४, १, १०५; २, १११;
 -क: सु २३, ३.
 औल्लूक्य- पा ४, १, १०५.
 २औल्लूक पा ४, २, १११.
 उल्लूखल^१- पाग ६, ३, १०९; -ः^१ल
 आपश्री १६, २६, ३; वैश्री १८,
 १८: ९; हिश्री ११, ७, ४५;
 -ल: णआपमं २, १३, ८; ९; पागृ
 १, १६, २३; आमिगृ २, १, ३:
 १३५; कागृ ३५, १^३५; भागृ १,
 २३: ३५; हिगृ २, ३, ७५; जैगृ
 १, ८: १५५; -लम् आश्री २,
 ६, ७; शांश्री: निघ ५, ३५; णया
 ९, २०^३५; ३५; -लस्य काश्री
 १७, ४, २१; हिश्री ११, ७, ५२;
 वृदे ३, १०१; -ः^१ला: भागृ २,
 १५: ६; मागृ २, ८, ४; हिगृ २,
 १४, ४; -लान् काश्री १७, ५,
 ३; अप ३७, १, ५; -लान् अप

३७, १, २; -लानाम् अप ६४,
 ४, १०; -लानि भाश्री २, २,
 १२; ६, १६, २१; -ले काश्री
 ३, ८, १५; १७, ५, ४; आपश्री
 १, ७, १०; ३, १०, १५; बौश्री;
 -लेन कौसू १४, १८.
 औल्लूखल^१- -ः^१ला: आपमं २,
 २०, ३४; आमिगृ ३, २, २: ४;
 ६: ८; -लान् काश्री १०, ३,
 १२५; -ले शुभ्र १, ५३.
 औल्लूखली- -स्यौ ऋभ्र २,
 १, २८.
 णउल्लूखल-क^१- -क आपश्री १६,
 २६, १; बौश्री १८, ४१: १२;
 माश्री ६, १, ७, २३; वाश्री २, १,
 ७, १; वैश्री १८, १८: ५; हिश्री
 ११, ७, ४३; या ९, २१.
 उल्लूखल-दरण- -णे कौसू ३६, १५.
 उल्लूखल-धर्म- -मान् आपश्री १२,
 ४, १५.
 उल्लूखल-भुम्भ^१- -भ: आश्री १२, ६,
 ४; शांश्री १३, २९, ५; काश्री
 २४, ५, २७; आपश्री २३, १२,
 १५; बौश्री १६, २९: ८; २३,
 १२: १७; हिश्री १७, ८, ६;
 १८, ४, २९; लाश्री १०, १५,
 १४५.
 उल्लूखल-मुसल- पाग २, २, ३१;
 ४, १४; -लम्^१ काश्री २, ३, ८;
 बौश्री; -लयो: वैगृ ३, ७: २०;
 -ः^१लाभ्याम् आमिगृ १, ७, २:
 ८; बौगृ २, ८, २२; -ले शांश्री
 ४, ३, २; १४, ३२; काश्री; निघ
 ५, ३; या ९, ३५; -लौ वैगृ ५,
 ४: २८.

a) = तृणविशेष-राशि-। षस. ।

b) = कलाप्यन्तेवासिन्-। व्यु. ? ।

c) अर्थ: व्यु. च ? ।

d) = बालग्रह- विशेष-। व्यु. ? ।

e) परस्परं पाभे. । f) वैप १ द्र. ।

g) 'छ' इति अप्रा. । h) विप. ।

बस. । i) मलो. कस. । j) = ऋषि-विशेष-। व्यु. ? । k) समाहारे द्वस. ।

उल्लुखलमुसला(ल-अ)वकाश-
-हो बौध २, ८, २२.

उल्लुखला(ल-अ)ध्यहन- नम्
बौधौ २५, ३१ : ५; -नात्
बौधौ २०, ६ : २६.

उल्लुची- -ची अप १, ३२, ३.

उल्लप^० (>औल्लप-पा.) पाग ४, २,
१३३.

उल्ललि- उल्लि- द्र.

उ(ल्ल>)ल्ला^०- पाउ ३, ४२; -ल्लकया
वैग ५, ६ : १४; वैध ३, ४, २;
-ल्ला काग ९, ७; माग १, ४, ६;
वाग ८, ६; कौसू १२६, १; अप
५०, ९, २; ५३, १, ५; ५८^२, २, ३;
३, ५; ४, ८^३; १४; ६१, १, २७;
६३, २, ९; ६७, ६, १; ७०^३, ११,
१२; गौध १६, २७; -ल्ला: अप
५८^२, १, ८; ४, १०; -ल्लकानाम्
अप ५८^२, ३, २; ६४, ४, ४;
-ल्लकाम् आपथौ ११.२०, १०;
गौपि १, ५, १३; शैशि ९२;
-ल्लकयाम् पाग २, १४, ११;
कौसू ९३, ३३; अप ५८^२, ४,
२०; आपथ १, ११, ३०; हिध
१, ३, ८०.

उल्ला-तारा- -रा: अप ७०^२, ७, ७;
७१, ९, ३.

उल्ला(ल्ला-आ)दि- -दय: अप
५८^२, १, १; ७२, २, ४; -दिपु
अप ६८, ५, १६.

उल्लादि-भेद- -दा: अप ६९,
६, १.

उल्ला-दोष- -वात् अप ५८^२, ४,
२०^२.

उल्ला-पात- -ते द्राग ३, २, ३०;

काध २७६ : १; -तेषु अप ५८^२,
४, १२; -तै: अप ६४, २, १.

उल्लापात-भूमिचल^०-ज्योतिषो-
रूपसर्ग- -गेषु गोय ३, ३, १८^०.

उल्ला(ल्ला-अ)भाव- -वे गौपि १,
५, १४.

उल्ला(ल्ला-अ)मिहत- -तम् अप
७२, १, २; अत्र १९, ९^१; -ते
अप ७२, १, ४.

उल्ला-भेद- -दा: अप ६८, ५, १५.

उल्ला-लक्षण- -णम् अप ५८^२,
१, २.

उल्ला(ल्ला-अ)वरूपजृद्-भूमि-
चलना(न-अ)ग्न्यु(मि-उ)त्पात-
-तेषु पाग २, ११, २^०.

उल्ला-विकार- -र: अप ५८^२, ३,
९; १०.

उल्ला-विद्युत्^१- -द्युत् वाध १३,
३७.

उल्लाविद्युत्-समास- -से वाध
१३, ३६.

उल्ला-सङ्घ- -ङ्घै: अप ५८^२, ३, ३;
४, १०.

उल्ला-हस्त^०- -स्त: शंध ३२८.

उल्लुषी^०- -०षि काथौ ३, ५, १४;
-षीम् काथौ ८, ९, ९.

उल्ल^०- पाउ ४, ९५; -ल्लम् आपथौ
९, १९, ३; १८, ५, ७; १४, १;
बौधौ ११, ११ : ९; १२, ९ :
१५; १९, ७ : २५; वैधौ १७,
१४ : ७; वाथौ ३, ३, २, ३०;
हिधौ १३, २, १; ५, २३; १४, १,
२२; निध ४, ३; या ६, ३५; ४^०
दंवि २, ६; -ल्लात् बौधौ १४,
१४ : १९.

उ(ल्ल्य >)ल्ल्या- -ल्ल्या: काथौ
१५, ४, ३५; बौधौ १२, ८ : १४;
-ल्लयानाम् आपथौ १८, १३,
१५; हिधौ १३, ५, १४.

उल्ला, ल्लाण^०- पाउभो २, २, १२६^१;
-ण: अप ५७, २, ८; -णम् अप
५४, १, ५; गौध ९, ४; तैप्रा १३,
१२^१.

उल्लुक^०- पाउ ३, ८४; -कम्
शाथौ ४, ४, २; ५, ९; काथौ ४, १,
८; ६, ५, ४; ७, ९, २१; आपथौ ७,
१५, २; ३; ८ x x; -कस्य जैग
२, ५ : ७; -कात् बौपि ३, १०,
२; -कानि बौधौ ९, ८ : १०;
-के शाथौ ३, १९, १५; काथौ;
-केन आपथौ १, २५, १४;
बौधौ; -कै: आपथौ १, २५, ८;
भाथौ १, २६, ६; हिधौ १, ६, ५२.

उल्लुक-निधान- -नम् गोय ४, ४
१०.

उल्लुक-पाणि^०- -णि: वाथौ १, ६,
४, ३०.

उल्लुक-प्रत्यसना(न-आ)दि^०- -दि
आपथौ १५, १९, ४; भाथौ ११,
१९, १३.

उल्लुक-प्रथम^०- -मा: बौधौ ४, ६ :
२६; आमिग ३, ५, ३ : ७; बौपि
१, ३ : ६; हिपि २ : ८.

उल्लुक-सङ्घदाच्छिन्न- -ज्ञानि काथौ
४, १, २१.

उल्लुक-हरण- -णम् बौधौ २५,
३४ : ४; माग २, ९, ११.

उल्लुक-हस्त^०- -स्त: काठथौ ५७.

उल्लुका(क-आ)दान- -नम् काथौ
१५, २, ५.

a) अर्थ: व्यु. च ? । b) =देश-विशेष- । तु. पागम., [पक्षे] च कुलूत- इति । c) वैप १ द्र. ।

d) ल्लन इति मुजफ्फपुरसं. । e) परस्परं सप्र. । f) समाहारि द्वस. । g) विप. । बस. । h) =उल्ला-
(सु. भाष्यम्) । व्यु. ? । i) ल्ल्व इति । j) <ज्वल् इति पाउभो २, २, २६ । k) षस. > बस. ।

उल्मुका(क-अ)र्थे-थेम् आमिगृ ३,
७,४ : २५.
उल्मुकार्थ-स्व-स्वात् बौपि २,
४,८.
उल्मुकै(क-ए)कदेश-शम्
आपथौ ७,१९,५;७; १९,८,३;
हिथौ २३,१,३०.
उल्य- उल- द्र.
उ(द्व>)ल् √ लङ्घ् > उल्-लङ्घ्य
कप्र २,५,७; १०,११; ३,१, २.
उ(द्व>)ल् √ लप् > उल्-लप्य कौसू
७२,३३.
उल्लाघ- पा ८,२,५५.
उ(द्व>)ल् √ लिख्, उल्लिखते विध
८६, २०; उल्लिखति काथौ ४,
१, ७; ६, ४, १२; ७, ३, २८;
भाथौ ८,४, १५; उल्लिखेत् आथौ
२,६,९; द्राथौ.
उल्-लिखत्- -खन् द्राथौ ११, १,
१०; लाथौ ४,१,१०.
उल्-लिखित- -तम् आपथौ १६,
९, ६; वैथौ १८, ७ : ९; हिथौ
११,३,५.
उल्लिखिता(त-अ)न्त- -न्ते
आपथौ १,८,८.
उल्-लिखिस्वा वैगृ ६,१४ : ८.
उल्-लिख्य काथौ २,६, १९; ४,८,
१४; आपथौ.
उल्-लेख- -खे अप ५३,६,२.
उल्-लेखन- -नम् वैगृ ४, ६ : १;
शंघ १७९; -नात् काथौ ७,
४,९; -नेन विध २३,५६.
उल्लेखन-प्रभृति- -ति बौपि २,
११,२.

उल्लेखना(न-आ)दिक- -कम्
कप्र २,८,१६.
उ(द्व>)ल् √ लिङ् > उल्-लिङ्(त-
>)ती- -ती वाधूथौ ३, १९ :
२२.
उल्-लिङ् गोथ ३,६,३; द्राथ ३,१,
४४.
उ(द्व>)ल् √ लुप् > उल्-लुप्त-
-प्तः अथ १९, ३३; ४६; -सम्
कौसू ५८,११; अप ४६,५,५.
उल्-लुप्य कौसू १९,२५.
उल्-लोपम् कौसू ४३,१९.
उल्लवण- उल्लवण- द्र.
?उवाचरेत्^a आपमं १,१६,२.
?उवाप्रजितानाम्^b वाधूथौ ३, १ : १.
?उवेवैषः बौथौ १४,२७ : १९.
उशत्- √ वश् द्र.
उशन्^c - -शने शाथौ १४,२७,१३१.
औशन^d - -नम् जैथौ २४:४; जैथौका
४६; द्राथौ २,२,२४; ८,२,१५;
लाथौ १,६,२२; ४,६, १४; ६,
१२, १४; ९, ५,१९; निसू ३,
१० : १; १०,२ : २९.
औशन-काव- -वे जुमू ३,११ :
२५; द्राथौ ८,१,२२; लाथौ ४,
५,२०; निसू २०,२ : २७; ३०;
औशन-श्यावाश्व- -श्वे लाथौ
७,३,११.
उशन^e - > उशन-व(त>)ती- -ती
शाथौ १४,२७,१३; २८,१०.
उशन-स्तोम^f - -मम् शाथौ १४,
२७-२८,१.
उशनस्^g - पाउ ४,२३९; -नसः जैगृ
२,८ : २०; अप ५२, १६, ४;

बौध २,२,७९; ३,९,१२; ऋअ
२, ९, ६७; चाअ १६ : २५;
३८ : १६; -नसम् बौथौ १८,
४६ : १७; अप ७१, १, १;
-नसे वैगृ २, १२ : १२; कौसू
१३९, ६१; -नाः अप २४, २,
२; ६४, १, १; ६; ७१, २, ४;
शंघ २८९; शुअ २,१७५.
१औशनस्^h - -सः ऋअ २,५,२९.
२औशनस्ⁱ - -सम् आगृ ३,१२,१६
उशनस्^j - > ३औशनस्^k - -स
बौथौप्र १४ : ३; वैध ४,४, ६;
शंघ ११६ : ४१; -सस्य चाअ
३८ : १८; -साः बौथौ १८,
४७ : ७; बौथौप्र १४ : १; २;
-सौ बौथौ १८,४७ : २२.
औशनस-गौतम- -मानाम्
वैध ४,४,६.
उशनस-वत् बौथौप्र १४ : ४; वैध
४,४,६.
उशनस-स्तोम^l - -मेन आथौ ९,
५,१.
उशाना- -ना आथौ ९,५,२१; शाथौ
११४, २७,१; १३; बौथौ १८,
४६ : ३१; ऋअ २, ५, २९; ८,
८४; ९, ८७; वृदे ५, २७^m; ८,
९५; साअ १,५; ३४; ५३१; २,
८२१; ९९९; पा ७, १, ९४.
उशानⁿ - (उशानक- पा.) पाग ५,
२,६२.
उशिञ्^o - पाउ २,७१; पाग ५,४,३८;
-१शिक् शाथौ ६, १२, १८^p; ७,
९, १; काथौ १२, ५, २१; आपथौ
१२, ८, ८; बौथौ ६, २९ : ११;

a) पाठः? उपा^o इति शोधः (तु. सपा. ऋ १०, १५९, २) । b) पाठः? उपा^o इति शोधः स्यात् (तु. मूको. उपाप्रजितानम्?) । c) वैप १ द्र. । d) =साम-विशेष- । e) =एकाह-विशेष- । बस. । f) =ऋषि-विशेष- । व्यु. ? । < √ वश् इति पाउ. । g) विप. (पाद-) । h) =प्रह-विशेष- । i) =ऋषि-विशेष- । j) तु-पागम. । k) पाभे. वैप १, ९७६ b द्र. ।

१४, १२ : १७; वाश्री ३, २,
५, ८; वैश्री १४, १२ : ११;
१५, १३ : ४; हिश्री ७, ७, ३३;
८, ३, ३३; जैश्री १३ : १५;
द्राश्री ४, २, ९; लाश्री २, २,
१८; वैताश्री २२, ४^२; आपमं
२, ११, २५; अप ४८, ३; निघ
२, ६; या ६, १०^६; -शिशिजः
आपश्री १२, ७, १०; बौश्री ४,
५ : ३; १०, ४९ : १९; हिश्री
८, २, ९; आपमं २, ११, ३०;
अप ४८, ८५; निघ ३, १५;
या ६, १०^६; -शिशिजम् बृदे ४,
२४.

१ औशिज- पा ५, ४, ३८.

२ औशिज^b- -जः शाश्री १६,
११, ५; हिश्री ६, ६, १६^६; ऋअ
३, २१; अप्राय ४, १^६; बृदे
३, १२५; ऋया ६, १०^६;
ऋप्रा १४, ५९^६; -जम् बौश्री
३, ९ : ६^६.

उशिक्-प्रसूत- -तः ऋअ २, १,
११६.

उशिज^d-> ३ औशिज^b- -०ज

आश्री १२, ११, ३; आपश्री २४,
६, १५; हिश्री २१, ३, ९; -जाः
आपश्री २४, ६, १४; हिश्री २१,
३, ९.

उशिज-वत् आपश्री २४, ६, १५;
हिश्री २१, ३, ९.

उशीनर^e- पाउवृ ४, १; पाग ४, १,
८६; १०८; ५, ३, ११७; -राः
अप १, ८, ७; -रान् अप ५०,
२, ४; -रेषु पा ४, २, ११८.

औशीनर- पा ४, १, ८६; ५, ३,
११७; -रः बौश्री १८, ४९ : २;
ऋअ २, १०, १०९.

औशीनर^e- पा ४, १, १०८.

उशीर^f- पाउ ४, ३१; पाग ४, २,
८०^६; ४, ५३; फि ६७; -रः
अप ३५, १, १६; -रम् अप ५,
२, १; ९, १, ५; ३५, २, ९; या
२, ५; -राणि कौसू २९, २४;
२५; -रेण अप १, ४४, ९.

औशीरेय- पा ४, २, ८०^h.

उशीर-बीज- पाग २, २, ३१ⁱ.

उशीरिक- पा ४, ४, ५३.

✓उष् (बधा.)^j पाधा. भ्वा. पर. दाहे,
ओषति आपश्री २४, १४, १०;
ऋप्रा ९, ४३^६.

उषप- पाउ ३, १४२.

उष्ण, ष्णा^k- पाउ ३, २; पाग १, ४,
७४; ५, १, १२३; -ष्णम् काग
६, २^३; अप्राय; या २, २; -ष्णया
बौध २, १, १७; -ष्णाः बौश्री
१७, ३९ : ३; पाग २, १, ६;
आमिष्ट १, ३, १ : ३; २, २, ५ :
८^३; आपग १०, ५; काग ६, २;
४०, ९; १०^६; भाग २, १९ :
१३; १४; माग १, २१, २; हिग
२, ६, ६; कौसू ३२, १६; ७५,
२५; अप ६८, १, ९; वाध २१,
२१; विध ४६, ११; -ष्णानि
बौध २, १, ६३; सुध ६३;
-ष्णाभिः आमिष्ट २, ६, १ : ४;
गोग १, २, २२; बौध १, ५, १४;
-ष्णाम् गौध २३, १; -ष्णासु
बौश्री १७, ४० : २३; कौग १,

२१, ७; शाग १, २८, ८; आमिष्ट
१, ३, ३ : ८^६; बौग २, ४, ८; -ष्णो
काश्री २५, २, २; ५, १०; कौसू
४७, ३३; अप ७०^६, १७, ५; ७१,
२, ५; पा ६, ३, १०७; -ष्णन
ऋपमं २, १, १; १४, १५; आग
१, १७, ६^६; पाग २, १, ६^६; काग
४०, ९^६; बौग २, ४, ८^६; माग
१, २१, २^६; वाग ४, ८^६; गोग
२, ९, ११^६; ऋग १, ११ : ८;
९; द्राग २, ३, २१^६; कप्र १,
८, १४; कौसू ३१, २६; ३३, ४;
विध २३, ९; सुध ८७ : १६.

औष्ण्य- पा ५, १, १२३.

उष्ण-क- पा ५, २, ७२.

उष्णं-करण- पावा ६, ३, ६९.

उष्णं/कृ पा १, ४, ७४.

उष्ण-ता-, उष्ण-त्व- पा ५, १,
१२३.

उष्ण-नामन्- -म या ११, २५.

उष्ण-यू (यू>) णा^l- -र्णायाम्
कौसू ३१, ३.

उष्ण-शीत, ता- पाग ५, ४,
२९; -ताः हिग २, ६, ५; -ताभिः
आमिष्ट २, १, ४ : ५; वैग ३,
१५ : १२; हिग १, १०, २; २,
३, १०.

उष्णशीत-क- पा ५, ४, २९.

उष्णा(ष्णा-अ)ग्र^m- -ग्रम् बौश्री
२६, ७ : १०.

उष्णा(ष्णा-अ)म्बु-स्नान-> °न-
दन्तधावना(न-अ)अना(न-अ)नु-
लेपन-गन्ध-पुष्पो (प-उ) पानच्-
छत्र-दिवास्वप्न-रेतस्कन्द-स्त्रीद-

a) पाभे. वैप १, ९७६ b द्र. । b) अपत्यार्थीयः अण प्र. । c) पाभे. वैप १, ९७६ f द्र. । d) = ऋवि-
विशेष- । व्यु. ? e) = देश-विशेष- प्रसृ. । व्यु. ? । < ✓ वश् + नृ- इति पाउवृ. । f) नपि. । व्यु. ? । < ✓ वश्
इति पाउ. । g) अर्थः व्यु. च ? । h) = देश-विशेष- ? । i) °ज-सिआस्थ- इति पक्षे पागम. ? । j) वैप १ द्र. ।
या ३, १, ३८ परामृष्टः द्र. । k) वैप १ द्र. । l) पूष. = उष्णोदक- । m) विप. । बसु. ।

शैतस्पर्शन-मैथुन-काम-क्रोध-लो-
भ-मोह-मद-मात्सर्य-हिंसा(सा-
आ)दि- -दीनि वैध १, २, ६.
उष्णा(ष्ण-आ)तै- -ताः अप
६८, १; १८.
उष्णालु- पावा ५, २, १२२.
उ(ष्णक>)ष्णिका- पा ५,
२, ७१.
उष्णिमन्- पा ५, १, १२३.
उष्णो(ष्ण-उ)दक- -कम् बौश्री
१९, १० : ८; द्रागृ २, ३, १७;
२१; कौसू ३५, २७; ५३, १६;
-कै कौसू ४८, ४०; -केन बौश्री
९, १७ : २०; १८, १९ : ९;
२९, ४ : १६; बौगृ २, ४, १६;
अप ३०^२, २, ३; शंघ १६४.
उष्णोदक-कंस- -सः गोगृ
२, ९, ४; -सम् गोगृ २, ९, ११.
उष्णोदक-परोदक- -कैः
शंघ १००.
उष्णोदक-मिश्र- -श्रेण बौश्री
२९, ११ : २.
भोषत्- -षत्, -षति या ९, २७.
भोषन्ती- अत्र १२, ५ (६).
उष^१- उषः अत्र १६, ६.
उष^२-> उष-पुट- -टैः वैश्री १७, १५; ४
उषप- √उष द्र.
उषस(,र),षास^१ पाउ ४, २३४; पाग
३, १, २७; पावाग ८, २, ७००;
शुप्रा ३, ११८; -फंषः आश्री
४, १४, २^४; शाश्री; या १२, ६;
-षमिः, -षम्यः, -षम्याम् पावा
७, ४, ४९; -षसः फंआश्री २, ५,
१४××; शाश्री; कौसू ९१, १०;
निघ १, १८; या ४, २५; ५, २८; ७,
३१; १२, ७; १३; पा ६, ३, ३०६;
पांवा ७, ४, ४८६; -षसम् शाश्री

१५, २२, १^९; ऋअ २, ३, २०;
वृदे २, ९; ६१; ४, १०२^१; १३८;
या ३, १६; ऋप्रा ४, ८८^१; उस्
२, ३०; भाशि ८४^१; -षसा
काश्री ४, १५, ९; वैताश्री ७, ११;
आपमं २, २०, ३१^१; अप ४५,
१, २१^१; वृदे ३, १११; अत्र ८,
९^१; -फंषसाम् आश्री ३, १२,
२९; शाश्री; निघ १, १५; या ११,
६; -षसि आपश्री ६, ४, ९; २०,
१२, १०; बौश्री; आमिगृ ३, ३,
२: २^१; -षसे शाश्री ६, ३, ८^१;
९, २८, ५; आपश्री २०, १२,
१०^१; बौश्री; या २, १९^१;
-फंषाः आश्री ३, १२, १८; ४,
१४, २; १५, २××; शाश्री; निघ
५, ५; ६; या २, १८^१; ३, ५;
४, १६; ५, २१; ७, २९; ८, १०^१;
११, ४६; ४७^१; १२, ५^१;
-षासः^१ आपमं १, १४, ७^१;
-फंषासम् ऋप्रा ९, ४१; ४८; ५२.
भौषस- -सः वृदे ६, ६३; -सम्
आपश्री ९, १०, ८; बौश्री २४,
३१ : १२; भाश्री ९, ११, ३;
वाधूश्री ४, ३९; ३; वृदे ३, १२४;
-सात् वृदे ४, १२४; -साय
वृदे ३, १२९; ऋअ २, १, ९५;
-से वृदे ३, ११३^१; १४०; ५,
६; १२०; -सेषु वृदे ३, ४५.
भौषसी- -सी कौसू १०१,
१^१; -सीः वृदे ७, १४०; -स्याम्
कौसू ९३, ९; -स्यै कौसू १०१, २.
उषः-पुत्र- -त्रः या १२, २.
फंउषर्-बुध^१- पावा ८, २, ७००;
-बुधः ऋप्रा १, ८०; -बुधम्
आश्री ४, १३, ७; ७, १२, ६;
शाश्री १४, ५७, ९.

उषर्-बुध- पावा ८, २, ७००;
षावाग ३, २, ५०.
√उषस्य पा ३, १, २७.
उषस्य, स्या^१- पा ४, २, ३१; -स्यः
आश्री ४, १४, १; २; ऋअ २,
४, ३०; वृदे ३, १०२; साअ १,
१७८××; -स्यम् शाश्री ६, ५,
१; ऋअ; -स्या ऋअ २, ७, ४१;
८, १०१; वृदे ५, १७०××;
-स्याम् शुअ ४, २०; -स्ये
आश्री ८, १२, ३; वृदे ५, ८८.
उषासा^१ पा ६, ३, ३१.
फंउषासा-नक्त^१- -क्ता आश्री २,
१६, ९; १२; ७, ७, ८; शाश्री
३, १३, २०; २७; ११, ९, १०;
१२, १७; वैश्री ८, ६ : ४; अप
४८, १३३; ऋअ २, १, १३;
१०, ३६; शुअ २, ४३१; निघ
५, २; या ८, ११^११^१; ऋप्रा ९,
४९; शुप्रा २, ४७; अप्रा ३, ४, १.
उषो-देवता-> ^१व(त्य>)त्या-
-त्यया अत्र ३, १६; -त्याः
अत्र १६, ६.
उषो-नामन्- -मानि निघ १, ८;
या २, १८.
उषसा^१- -सा बौश्री २१, १२ : ३.
उषा पाग १, १, ३७.
उषा^१- -षा अप ४८, १३९^१; -षाम्
ऋप्रा २, ६९^१; -षाम् ऽषाम्
कागृ ४६, ७.
उषा-बुध- -बुधम् वाधूश्री ४, ८५ :
१३^१.
उषित- प्रभृ. √वस् (निवासे) द्र.
उष्टार-, उष्टृ- √उच् द्र.
उष्टृ^१- पाउ ४, १६२; -ष्टृः शाश्री
१६, ३, १४; १२, १३; बौश्री २४,
५ : २०; वाधूश्री ४, १९ : २३;

a) वैप १ द्र. । b) ऊब- । c) तु. पागम. । d) पाभे. वैप १, ९७७ i द्र. । e) अर्थः व्यु. च्? ।

३० : ८; अप ७१, ६, ५; शंघ
३०८; विध ५, १४२; ४४, ४२;
पा ६, २, ४०; -ष्टम् बौश्री १०,
३४ : १३१; पाठ ३, १५, ५;
अप ७१, ६, १; -ष्टाः शांश्री
१२, १४, २१; अत्र ५७, २, ६;
-ष्टानाम् वाश्री ३, ४, ४, २२१;
-ष्टान् वैष् ६७ : ११; माष्ट
२, १४, ११; -ष्टे बौश्री २,
५ : १०१; -ष्टेण विध ५४, २३;
-ष्टैः अप ६१, १, ७; ६८, २, ४३.
उष्ठी- ष्टी वाधूश्री ४,
३० : ८.

औष्ठीक- -कम्

बौध १, ५, १३७.

उष्ठी-क्षीर- > ऋ-मृगि-

क्षीर-संधिनीक्षीर-यमसूक्षीर-

-राणि आपध १, १७, २३;

हिध १, ५, ५५.

औष्ठी- -ष्टम् शंघ ४२०; गौध
१७, २२; -ष्टेण वैताश्री ३४, ११.

औष्ठीक- पा ४, ३, १५७.

उष्-खर- पा, पाग २, ४, ११;

-रे गौध १२, २०.

उष्-म्री(वा >)व- पा, पाग ५, ३,
१००.

उष्-यान- -नम् सुध ५१.

उष्-वध- -धे विध ५०, २९.

?उष्-वामि- पा ६, २, ४०.

उष्-शश- पा, पाग २, ४, ११.

?उष्-सादि- पा ६, २, ४०.

उष्-क्ष- -क्षाः^० बौश्रीप्र ३ : १४;
३६ : २.

औष्ठाक्षि- -क्षिः निसू ४, ४;

६.

२उष्- (>औष्ठायण->^०यणक-
पा.)^१ पाग ४, २, ८०.

उष्ण- प्रमृ. √ उष् द्र.

उष्णिमन्- √ उष् द्र.

उष्णिह- पा ३, २, ५९; पाग ४,

१, ४; ८६; ५, ४, ३८^१;

-ष्णिक्

आश्री २, १४, २२; शांश्री ७,

२७, २; बौश्री २४, ५ : २२;

वाधूश्री ४, ४६ : ४; १००^२ :

४; वैताश्री; या ७, १२८^३;

-ष्णिञ्जु लाश्री १०, १, १५;

-ष्णिग्भिः आश्री १४, ३३, ७;

माश्री ६, २, २, २१; वाश्री

२, २, १, ३१; वैश्री २१, १८ :

१; हिश्री १५, ८, ४०; -ष्णिग्भ्यः

काश्री १७, ११, ७; -ष्णिहः

आश्री ६, ३, ७; ८, १२, १७;

२२; काश्री १७, १२, १२^४; बौश्री;

-ष्णिहम् लाश्री १०, ६, १२;

शंघ ११६ : ३२; शुभ्र; अश्र

२०, ६२-६४^५; १००^६; १११^७;

-ष्णिहा आपश्री ८, ४, २;

बौश्री ५, ४ : २७; ९ : २८;

१७ : १६; १८ : २२; माश्री

१, ७, २, २३; हिश्री ५, १, ४५;

-ष्णिहाम् आश्री ६, ३, ७; लाश्री

१०, ६, ९; -ष्णिहि द्राश्री ८,

२, १७; लाश्री ४, ६, १४; लुसू;

-ष्णिहे वाधूश्री ४, २६^८ : १०;

वैताश्री १, १८; -ष्णिहोः उनिसू

४ : ३९^९; -ष्णिहौ ऋश्र २,

१०, २६; अश्र ६, २; १८, ४;

ऋश्र १६, ३२.

१उष्णिहा- पा ४, १, ४; -हा
आपश्री १६, २८, १; बौश्री १३,
४२ : १; वैश्री १८, २० : १९;
-हाः आपश्री १७, ४, १४; हिश्री
१२, १, ४१.

औष्णिह- पा ४, १, ८६;

५, ४, ३८; -हः शांश्री १०, ४,

४; ११, ६, १; शुभ्र २, २२, ३;

ऋश्र १८, ७; -हम् आश्री ४,

१३, ७×४; शांश्री; -हयोः

निसू ९, १३ : ४५; -हस्य

शांश्री ९, ५, १२; -हान् शांश्री

९, २०, १७; -हान् शांश्री १०,

१२, १२; -हे निसू ५, ३ :

२४; -हेन शांश्री ९, ५, १०;

११; -हौ अश्र २, १०.

औष्णिही- हीम्

शांश्री १८, १२, १.

औष्णिह-पांक्त-गायत्र-

ऋश्र- -भाः ऋश्र २, १, ८४.

औष्णिह-बाहंत- तौ

आश्री ६, २, ५.

उष्णिह, हा-ककुम्- -कुम्भः

वाधूश्री ४, ८५; -कुभौ आपश्री

१९, २७, १७; बौश्री १३, १ :

११.

उष्णिहा-पूर्व^{१०}- -र्वः ऋश्र

१८, ७.

उष्णिक्-ककुम्- -कुञ्जिः आपश्री

१४, ३३, ६.

उष्णिक्-ककुम्- -कुब्ज्याम् लुसू

१, ४ : ३३; ५ : १५; ९ : १०;

-कुम्भः निसू ९, ४ : २७;

-कुम्भोः लाश्री ६, ३, २७.

a) विप. (पयस्-) । b) विप. । तस्य विकारीयः अण् प्र. । c) ष्वा- इति पाका. । d) = ऋषि-
विशेष- । व्यु. ? । e) बहु. < औष्ठाक्षि- । f) = आचार्य-विशेष- । g) अर्थः व्यु. च ? । h) = देश-विशेष- ? ।
i) वैप १ द्र. । j) = छन्दो-विशेष- । व्यु. ? । उष्णिज् इति पासि. प्रमृ. ? । k) = इष्टका-विशेष- । l) पाठः ?
औष्णिज् इति शोचः । m) पाठः ? 'हौ इति शोचः । n) विप. । बस. ।

उनिस् ८ : १७; मीस् ५, ३, ६;
-कुभौ हिश्रौ २१, २, ६; २२,
६, २६; जैश्रौ १८ : १३; निस्
७, ३ : ३३; ९, ४ : ८३.

उष्णिक्-त्रिष्टुब्-जगती- -त्यः ऋअ
२, ३, २८; शुअ १, ५६२.

उष्णिक्-शकरी-त्रिष्टुब्- -दुभः
शुअ ४, ३४.

उष्णिक्-सतोबृहती- -त्यौ ऋअ २,
८, १९.

उष्णिग्-अनुष्टुप्-परउष्णिग्-अन्त^०-
-न्तम् ऋअ २, ८, ७०.

उष्णिग्-अनुष्टुब्-ग(र्भे>)र्भा^०-
-र्भा अअ १२, १^२.

उष्णिग्-अनुष्टुब्-बृहती-पङ्क्ति-
त्रिष्टुब्-जगती- -त्यः पिं ३,
१४.

उष्णिग्-अन्त^०- -न्तम् ऋअ २, १,
९२.

उष्णिग्-उपरिष्टादबृहत्यु(ती-उ)-
ष्णिक्-पङ्क्ति- -ङ्क्तयः शुअ २,
११७.

उष्णिग्-ग(र्भे>)र्भा^०- -र्भा ऋअ
१, ४, ३; २, ८, २५; शुअ ५, १६;
अअ १, ११; २, ३३; ३, १८, ५,
४; ६, ५६; ७, ५३; ८, १०(२);
१०, ४; १२: १३; ११, ५; १९,
४६; ऋप्रा १६, २८.

उष्णिग्-जगती-पङ्क्ति-त्रिष्टुब्-
बृहती^०- -त्यः अअभू ३.

उष्णिग्-बृहती- -त्योः शाश्रौ ७,
२७, १८; -त्यौ शाश्रौ १, १७,
१०.

उष्णिग्-बृहती-ग(र्भे>)र्भा^०-
-र्भा अअ ३, ११; ५, १०; ११,

९; १२, ४; १३, २; १९, ५७.

१ उष्णिहा- उष्णिह- द्र.

२ उष्णिहा^०- -हाभ्यः आपमं १, १७,
२१.

उष्णीष^०- पाउभो २, ३, १६२; -षः
काश्रौ १५, ३, १९; बाधुश्रौ ३,
६९ : ३५; -षम् आश्रौ ५, १२,
६; ११; ८, १४, १७; शाश्रौ ७,
१५, १७; काश्रौ; आपश्रौ १५,
९, ५१^०; बौश्रौ ९, ९ : ७१^०;
माश्रौ ११, ९, ६१^०; माश्रौ ४,
३, ५१^०; वैश्रौ १३, ११ : ८१^०;
हिश्रौ २४, ४, ३१^०; या ७,
१२; -षान् शाश्रौ १८, २४,
२३; -षाय काश्रौ ७, ७, ४;
-षेण काश्रौ ७, ७, १७; आपश्रौ.

उष्णीष-वेष्टित- -तम् काश्रौ २५,
१०, ८; -तस्य काश्रौ २५, १०,
१६.

उष्णीषा(ष-अ)भाव- -वे काश्रौ ७,
७, ४.

उष्णीषा (ष-अ)लंकार-मणि-कनक-
रजन-वस्त्रा(स्त्र-आ)सन-याना(न-
आ)मिष- -षान् विध ६३, ३२.

उष्णीषिन्- -षिणे कौश्र २, ७, २४;
शाश्रु २, १२, १२; -षी कौस्
३९, ८.

उष्णीषिणी- -णी या ७, १२.

उष्य ✓वस् (निवासे) द्र.

?उस्तीणाम्^० काश्रौसं २६ : ५.

उस्मित^०- -तः माश्रु २, १४, २; -ताय
माश्रु २, १४, २७.

उस,स्रा^०- पाउ २, १३; -फंस्र
आपश्रौ ९, १८, १; १५, ९, ७;
बौश्रौ ९, ९ : ११; १२; २८, ६ :

९; माश्रौ ११, ९, ९; वैश्रौ १३^०
११ : १०; २०, ३४ : १३; हिश्रौ
१५, ८, ३; २४, ४, ३; -स्रः
आश्रौ ३, ४, १०; शाश्रौ १८, ५,
११^०; या ६, १५१^०; -स्रम्
बौश्रौ २८, ६ : १०; वैश्रौ २०,
३४ : १४; हिश्रौ १५, ८, ३;
वैताश्रौ ११, १; -फंस्रस्य बौश्रौ
१५, ३१ : १०; १३; ३३ : ८; १०;
-फंसा बौश्रौ ६, ८; १; ५४८,
९२; निघ २, ११; या ४, १९९;
-फंसाः आपश्रौ २०, १२;
२; बौश्रौ १५, १७ : १३; आश्रु
२, १०, ५; अप ४८, ११२; निघ
१, ५; या ५, ४; -फंसाणाम्
आपश्रौ २०, १९, ५^०; हिश्रौ
१४, ४, २८^०; -सायाः माश्रौ
२, ५, ५, ८; -स्रौ कौश्र १,
९, ६; ७; शाश्रु १, १५, ५; ८;
-फंस्रौ काश्रौ ७, ९, १०;
आपश्रौ १०, २८, १; बौश्रौ ६,
१५ : २७; माश्रौ १०, १९, ७;
माश्रौ २, १, ४, २७; वैश्रौ १२,
१९ : २५; हिश्रौ ७, ३, ६; शुअ
१, २८८; चाअ २ : ९.

उस-यामन्^०- -म्णे ऋप्रा ५, ५४१^०.
✓उसि, उसयेत् बौश्रौ २१, २६ :
१.

उसण- -णे बौश्रौ २१, २६ : १.

फंस्रिय,या^०- -या अअ ४८, ९२;
निघ २, ११; या ४, १९९; -याः
उनिस् ५ : ३८; -याणाम्
काश्रौसं २६ : ६; -यायाः आश्रौ
४, ७, ४^०; शाश्रौ ५, १०, १०; १८;
कौश्र ३, ५, ८; शाश्रु ३, १०, ३;

a) विप. ०। द्रस. > बस. । b) विप. । बस. । c) °ङ्क्तिष्णि इति पाठः ? यनि. शोधः । d) वैप१
द्र. । e) पाभे. वैप १, ९८० r द्र. । f) पाठः ? उस्त्रियाणाम् इति शोधः (तु. संस्कृतुः टि.) । g) =विनायक-
विशेष- । व्यु. ? । h) पाभे. वैप २, ३३. बस्रः तैत्रा २, ७, १३, २ टि. द्र. ।

या ४, १९; -यासु आश्रौ ४, ७,
४; शाश्रौ ५, १०, २१; कौसू
११५, २; अग्र ७, ७३.

इस्त्राविन्- -विणः या ४, १९.

√उह् (बधा.) पाधा. भ्वा. पर. अर्दने,
†ओहते शाश्रौ १२, १८, १९;
बौश्रौ १८, २९; ८; उसू २,
२२.

उह्या, उह्यमान- √वह् द्र.

ऊ

ऊ उ द्र.

ऊ- > ऊ-कार- -रः निसू १, १२ :
१९; तैप्रा ४, ५; -रम् द्विश्रौ
२१, २, ३४; -रस्य शौच ३,
६०.

ऊकारा(र-आ)दि- -दौ ऋप्रा २,
५७.

ऊ-काल- -लः पा १, २, २७; पाप्रवा
५, १६.

ऊ-भाव- -वे तैप्रा १०, १७; २०, ५.

ऊक- पाउभो २, २, ४; पाग २, १,
५९^०; पावाग ४, २, ५१.

ऊका(क-अ)वकल्पित- पा २, १,
५९.

ऊकिनी- पावा ४, २, ५१.

√ऊद् पाधा. भ्वा. पर. उपघाते.

ऊढ- ऊद्वा √वह् द्र.

†ऊ(णि>)णी- -ण्योः बौश्रौ ६,
१४ : १४; तैप्रा १३, १०.

ऊत, ता- √वे द्र.

ऊति- √अव् द्र.

ऊतीक- > क-स्तम्ब- -म्बम् बौश्रौ

१, १ : १०; २ : २२.

ऊदल- > ल-खाष्टी-सामन्-
-ओः लाश्रौ ४, ६, १७.

†ऊधन्- -धन् आपमं २, ११, २३;
-धनि आश्रौ ५, १३, ६; या ६,
१९^०.

ऊधन्य- पा, पागवा ५, १, २;
-न्यम् जैगृ १, १ : १३.

†ऊधर्- पा ८, २, ७०; ऋप्रा १,
९७; ऋत ३, ७, ४; उनिसू ७ :
१५.

इऊधस्- पाग ५, १, २; -†धः शाश्रौ
४, ११, १; काश्रौ ३, ३, १२;
आपश्रौ ७, १७, १; बौश्रौ १, २१ :
७; ३, २० : ६; भाश्रौ ७, १३,
४; माश्रौ १, ३, २, ७; वाश्रौ १,
३, ७, २१; द्विश्रौ ४, ३, ५४;
आपमं १, ११, ११; आगृ २,
१०, ६; कौगृ ३, ५, ६; १५, ३;
शांगृ ३, ९, ३; १२, ५; कागृ ५८,
२; या ६, १९^०; २२; शौच २,
५२; -धसः पा ४, १, २५; ५,
४, १३१; पावा ४, १, ७५; ५, १,
२; ४, १३१; -धसि आश्रौ ३,
११, ३; माश्रौ ३, २, १; अप्राय
२, ४; अप ९, १, ५.

इऊधस्- -धः लाश्रौ ७, ५, ९; निसू
३, १३ : ७; ४२; ४, १ : ११-१३;
-धःसु लाश्रौ ७, ५, २; १०, २,
७; -धसः निसू ३, १३ : २६;
४, १ : ५; -धसि निसू ४,
१ : ४.

ऊधस्-व(त >)ती- -स्यः लुसू ३,

७ : ५.

इऊधस्- -धः अप ४८, ७४[†]; निघ
१, ७[†]; या ६, १९^०; १४,
११.

√ऊन् पाधा. चुरा. उभ. परिहाणे.

ऊन, ना- पाउ ३, २; सुध ६५;
वेज्यो १५; १६; -†नम् आश्रौ
८, १३, २६; शाश्रौ; -नया द्विश्रौ
१०, ७, २; -नस्य निसू ९, १ :
४०; ४७; १०, ५ : १०; -ना
कप्र १, ८, १८; ऋअ ३, २७;
अपं ४ : ३४; ऋप्रा १७, २;
-नाः निसू १, ६ : २; -नान्
द्राश्रौ ८, ४, १७; लाश्रौ ४, ८,
१५; -नानाम् वृदे २, ९०;
-नाम् आपश्रौ १६, २६, १०;
वैश्रौ १८, १८ : १५; द्विश्रौ ११,
७, ५०; विध ५, १८२; ४७, ९;
-ने बौश्रौ १, १२ : ३४[†]; ऋप्रा
८, ४०; -नेषु ऋप्रा १७, २२.

ऊन-क- -के शाश्रौ ७, २७, २७.

ऊन-तर- -रम् ऽ-रम् आपश्रौ ६,
७, ८.

ऊन-त्रिर्वष- -र्षः शोध ३६३.

ऊन-द्विर्वष- -र्षे वाध ४, ३४.

ऊन-पञ्चाशत्- -शत् बौश्रौप ५४ :
११.

ऊन-पूर्ण- -र्णान् द्राश्रौ ८, ४, २४;
लाश्रौ ४, ८, २०.

ऊन-विंशति- -तिः बौश्रौ २६,
११ : ९; ऋअ ३, ४२.

ऊनविं(श >)शी- -शीम् कौसू
१३८, ८.

a) विप. (भोग-)। व्यु. ?। उस्त्रा इति सर्वसमतम्। b) वैप १ द्र.। c) = वर्ण-विशेष-। d) अर्थः
व्यु. च ?। = कुन्दम- इति पाउभो। e) १एक- इति पाका. पासि.। f) तु. पागम.। g) साम-विशेष-।
व्यु. ?। h) द्रस. > कस.। i) = महानाम्नी-भागविशेष-। व्यु. ?। j) = रात्रि-। व्यु. ?। k) पा. ३, १,
५१ परामृष्टः द्र.। l) विप.। उप. तद्धितार्थे द्विस. प्र. लुक् (पा ५, १, ८९)। m) विप. (उभय-
विध-। मास-)। कस.।

ऊनविंशति-रात्र- -त्रम् अप
१, ३३, ४.
ऊन-बोडवा^a- -शः विध ५४, ३३.
ऊन-स्थान- -ने वेज्यो १९.
ऊना(न-अं)श- -शः वेज्यो १६.
ऊना(न-अ)क्षर, रा^b- -रा या ७,
१३; -रेषु लाश्रौ ७, ९, ८.
ऊना(न-अ)तिरिक्त^c- -क्तस्य काश्रौ
८, ६, २२१; -क्ताः वाधूश्रौ ३,
८९ : ३१; -क्तानि वाधूश्रौ ४,
२६ : ५; -क्ते वौश्रौ २७, २ :
१३; वैश्रौ २०, २६ : ८; वौगृ
४, ९, ४.
ऊना(न-अ)तिरिक्त-पुनरुक्त-व्या-
घात- -तेषु वौश्रौ २९, २ : १५;
४ : २४.
ऊ(न>)ना-त्रिंशत् - -शतम् वाश्रौ
२, २, २, १३.
ऊना(न-अ)धिक- -केन ऋश्र १,
३, ४; शुश्र ५, ४; पि ३, ५९.
ऊना(न-अ)र्थ- > ^dर्थ-कलह^d -हम्
पा ६, २, १५३.
ऊना(न-अ)वसान^b- -नाः निसू ५,
११ : ३२.
√ऊनि^e, ऊनयीः ऋप्रा १४, ४३१.
ऊनी√कृ, ऊनीकरोति निसू १, ७ :
२८.
ऊनै(न ए)कादशवर्ष^a- -र्षस्य शंघ
३९२.
ऊनो(न-उ)पक्रम^b- -माः निसू ५,
११ : ३३.
ऊब, वृध्व^c- -ध्वम् शाश्रौ ४,
१९, ७; काश्रौ ६, ७, १३; काठश्रौ
६३; माश्रौ १, ८, ४, ४१; वाधूश्रौ

४, ८ : ४; वाश्रौ १, ६, ६, १९;
द्राश्रौ ४, ३, ४; लाश्रौ २, ३, ४;
आगृ ४, ८, २८१; पागृ ३, ८,
१२; कौसू ५०, १९; शुप्रा ५,
४२१; -ध्वे कौसू ४८, १६; १९;
-ध्वेन वाधूश्रौ ४, ८ : ४; ५.
ऊबध्य-गोह^c- -हः द्राश्रौ ४, ३,
४; लाश्रौ २, ३, ४; -हम् आश्रौ
३, ३, १; शाश्रौ ५, १७, ७; ६, १,
६; १५, १, २६; आपश्रौ ७, १६,
११; वाश्रौ १, ६, ६, १९; वैश्रौ
१०, १३ : ८; ९; हिश्रौ ४, ४,
६५; -हे वैश्रौ १०, १७ : १२.
ऊवध्य-वसा(सा-अ)ध्युधनी-वनिष्टु-
-दुषु काश्रौ १, ८, २१.
ऊम- √अव् इ.
√ऊय पाधा. अत्रा. आत्म. तन्तुसंताने.
ऊरी(>ऊरी√कृ पा.) पाग १, ४,
६१.
१ऊरु^e- पाठ १, ३०; -रुः आश्रौ १२,
९, ७; -रुणा आपश्रौ १३, १५,
९; वौश्रौ ३, ३० : ११; ८,
१४ : २८; ४२; माश्रौ २, ५,
२, २१; हिश्रौ ९, ४, ३३;
-रुभ्याम् आपश्रौ १३, १५, ९;
आपमं १, १७, ४; कौगृ ५, ६,
५; हिपि ९ : १०; वैध ३,
११, ८; अश्र २, ३३१; या ५,
१३; -रुम् आश्रौ ५, ५, ९;
काश्रौ; -रुवोः वौश्रौ ३, २५ :
९१; -रु आश्रौ ३, ३, ११;
शाश्रौ; वाध ४, २१६; या
८, १०; -रुन् आश्रौ १०, ८,
८; शाश्रौ; -रोः आश्रौ ५, ६,

१०; हिश्रौ ९, ४, ३३; -रै
काश्रौ १२, ३, १०; आपश्रौ;
-रौः शाश्रौ ४, १४, ३२; १५,
१८; आपश्रौ; माश्रौ ५, २,
१५, २०१; वैश्रौ १६, १८ :
१७१; वैताश्रौ ३, १४१;
पागृ १, ३, २५१; अश्र १९,
६०१.
ऊरु-दम् -दम् हिपि १६ : ७.
ऊरु-बल- > लिन- पावा ५, २,
१३५.
ऊरु-बाहु- -हुभ्याम् आमिष्ट ३,
९, १ : ११; वौपि २, ६, २४.
ऊरु-भाग- -गे याशि १, २०.
ऊरु-मूलो(ल-उ)पधा(न>) ना^f-
-नायै हिगृ २, २, ६.
ऊरु-स्थो (स्थ-उ) तान-करण^g-
-णः विध ९७, १.
ऊरु-मा(त्रक>)त्रिका- -का अप
२२, २, ३.
ऊरु(र-उ)त्तरपद- -दात् पा ४, १,
६९.
ऊर्वं(र-अं)स- -सयोः विध ९६,
६६.
ऊर्वं(र-अ)न्तर- -रे काश्रौ २०,
१, १७.
ऊर्वं(र-अ)ष्टीव^c- पा ५, ४, ७७.
ऊर्वं(र-अ)स्थि- -स्थि आपश्रौ १,
३, १७; आपशु ११, ४; हिशु ४,
४.
ऊर्वंस्थि-मात्र^b- -त्रः भाश्रौ १,
३, १६.
ऊर्वंस्थिमात्री- -व्यः वैश्रौ
१८, ११ : २३; आपशु ११, २, २३

a) विप. । तद्धितार्थे द्विस. उप. प्र. लुक् (पा ५, १, ८९) । b) विप. । बस. । c) वैप १ इ. ।
d) समाहारे द्वस. । e) द्राश्रौ. लाश्रौ. कौसू. बकारमध्यः पाठः । f) पाशे. वैप १, ९८४ f इ. । g) पाशे.
वैप १, ९८४ g इ. । h) ऊरुभ्याम् बाहुभ्याम् इति B. । i) विप. । कस. > बस. । j) विप. ।
उस. > कस. > बस. ।

हिशु ४,३.

२ऊरु- -रुः श्रुअ २, ९, १०८; साअ १, ५८४.

ऊरुक्ष- -क्षाः^१ बौश्रौप्र १७ : ५.

ऊरुढ- -ढाः^२ बौश्रौप्र १७ : ४.

✓ऊर्ज पाधा. चुरा. पर. बल-
प्राणनयोः.

ऊर्ज^१- ऊर्क^२ ऋकाश्रौ ३, ४, २, ७×४;
आपश्रौ; निघ २, ७; या ३, ८६;
ऋर्जः शाश्रौ २, ११, ६;
४, १०, १; आपश्रौ; माश्रौ २,
१, २, १६†; ऊर्जम् ऋआश्रौ
२, १६, १३; ८, १३, २; शाश्रौ;
ऋया ६, ३६; ९, ४३६; ११,
२८; २९६; ऊर्जा आश्रौ ५, ७,
३; शाश्रौ; ऊर्जाम् या ६, २१†;
ऋऊर्जाम्^३ बौश्रु ४, ११, २;
कौसू १०८, २; ऋर्जि आपश्रौ
१६, ३०, १; वैश्रौ १८, २० :
४६; हिश्रौ ११, ८, ४; द्राश्रौ ५,
२, ८; ऋर्जि आश्रौ १, ७, २×४;
शाश्रौ; या ३, २०; ९, २७६.

ऊर्क-कर- -रम् या ९, २०.

✓ऊर्जि^४, ऊर्जयति या ३, ८; ऋर्ज-
यध्वम् आश्रौ ५, ७, ३; शाश्रौ
७, ६, ३.

ऋर्जय(त् >)न्ती- -र्या बौश्रौ
२८, १ : १३; २ : १२.

ऊर्जयमा(न >)ना- -ने या ९,
४३†.

ऊर्जस्^५- > स् कर- -रम् वैश्रु
२, १८ : ७; १०†.

ऊर्जस्-पति- -न्ते विघ ९८,
१७.

ऋर्जस्-वत्- -वत् आपश्रौ
१३, २५, ३; जैश्रौ ११ : १९;
वैताश्रौ १७, ८; पाश्रु ३, ४, ४;
भाश्रु २, ४ : १२; -वन्तः हिश्रौ
६, ७, ८; हिश्रु १, २९, १; कौसू
८९, १२; या ८, २२; -ऋवन्तम्
शाश्रौ ६, ७, १०; ७, ४, १५;
आपश्रौ १०, २५, ४; १७, २३,
१०†; बौश्रौ ×२०, ५९; १९†;
भाश्रौ; वैश्रौ १९, ७ : ८†; हिश्रौ
१२, ७, ७†; या ८, २२; -वान्
आश्रौ १, १३, ४; शाश्रौ.

ऋर्जस्वती- -ती आश्रौ
१, ९, १; शाश्रौ; अप ४८,
११०†; -तीः बौश्रौ १, १ :
१२×४; वाश्रौ; -तीम् आश्रु
३, २, ५ : ३; भाश्रु २, १६ : ४;
-स्यः निघ १, १३†.

ऊर्जस्-वल- पा ५, २, ११४.

ऋर्जो-दा- -दाः द्राश्रौ २,
३, ५; लाश्रौ १, ७, ५.

ऋर्जित, ता- -तम् शंघ १०३;
-ता जैश्रौका २; -ताम् विघ
१, ३७.

ऋर्जर्ज, र्जा^६- -र्जया अअ ९, ६ (५);
-र्जाः शाश्रु २, ६, १; -र्जाम्
अअ ८, १० (४); -र्जाय आपश्रौ
१, १७, १०; बौश्रौ ७, १६ : २३;
भाश्रौ ८, ९, ८; हिश्रु १७ :
१६; भाशि २९; -०र्जे अअ ८,
१० (२).

ऋर्जर्जा(र्ज-अ)द्^७- -०र्जादः आपश्रौ
२४, १३, ३; बौश्रौ ३, २८ : १३;
या ३, ८६.

ऋर्जो-वत्- -वतः कौश्रु १, १४, ८;
शाश्रु १, २२, १०; पाश्रु १, १५,
६; गौश्रु २, ७, ४; द्राश्रु २, २,
२५.

ऋर्जर्जा(र्जा-आ)हुति^८- -ती आश्रौ
२, १६, १२; शाश्रौ ३, १३, २७;
माश्रौ ४, १, ११; वृदे १, ११४;
निघ ५, ३; या ९, ४२.

ऊर्जा(र्जा-आ)ह्वा(न >)नी- -न्वी
या ९, ४२; ४३.

ऋर्जिन्- -र्जा कौश्रु १, १४, ८;
शाश्रु १, २२, १०; पाश्रु १, १५, ६.

ऋर्जर्ज^९- -र्जः काश्रौ १७, ९, ७;
बौश्रौ १०, ४० : ४; हिश्रौ १२, २,
१, १२; आममं १, १०, ८; २,
१५, ८; वैश्रु ४, ८ : ६; बौश्रु २,
१०, ५; माश्रु २, ११, ११.

२ऊर्ज^{१०}- > ऊर्जायन- -नाः बौश्रौप्र
१२ : १.

ऊर्जव्य^{११}- -व्यस्य या ११, ४९†.

ऋर्जर्जिपिन्^{१२}- -षी आपश्रौ १७, १६,
१८; वैश्रौ १९, ६ : १०९; हिश्रौ
१२, ५, ३०.

ऊर्ण- प्रश्रु. ✓ऊणु द्र.

ऊर्ण-नाभ^{१३}- (१भौर्णनाभ- १भौर्ण-
नाभक- पा. यथाक्रमम्) पाग
४, १, ११२; २, ५३†.

भौर्णनाभि- -भयः बौश्रौप्र ३० : १.

ऊर्ण-वामि^{१४}- > भौर्णवाम- -भः वृदे
७, १२५; शुअ १, २१७; या २,
२६; ६, १३; ७, १५; १२, १; १०.

ऊर्णा-पिण्ड- प्रश्रु. ✓ऊणु द्र.

१ऊर्णायु^{१५}- > भौर्णायव^{१६}- -वम्
जैश्रौ २५ : ७; द्राश्रौ २, २, ५

a) ऋषि-विशेष-। व्यु. ?। b) बहु. <भौरुक्षि-। c) बहु. <भौरुक्षि-। d) वैप १ द्र.।

e) पाभे. वैप १, ९८९ ० द्र.। f) पाभे. वैप १, ९८६ ० द्र.। g) पाभे. वैप १, ९८७ ० द्र.। h) = उषो-नामन्-।

i) = नदी-नामन्-। j) उप. <भा/हु वा भा/हु वा (तु. या.)। k) व्यु. ?। पाभे. वैप १, ८७५. g द्र.।

l) भौर्णनाभ- इति. पागम.। m) = साम-विशेष-।

लाश्रौ १, ६, ४७; -वयोः लाश्रौ ६, ११, २; -वेन ससू २७, ६६?^१.
 १ऊर्णावत्^० -> और्णावत् -> और्णा-
 वत्य- पा ५, ३, ११८.
 ✓ऊर्णु^० पाधा. अदा. उभ. आच्छादने.
 ऊर्ण, णी^० - पाउ ५, ४७; पाग ५, १, ३९; -णम् वैगृ ४, ८ : ३१; अप ४६, १, ६; -णया कप्र ३, ४, २; -णा काश्रौ ४, १, १७; या ५, २१७; -णाः काश्रौ ५, ३, ७; माश्रौ १, ७, ४, ४; -णानाम् माश्रौ २, ३, १, १८; -णाभिः काश्रौ १९, १, १८; २५, ८, १३; आपश्रौ ८, ६, ११; वाश्रौ १, ७, २, २०; वौश्रौ ५, ५ : ८; हिश्रौ ५, २, ३९; -णाम् शाश्रौ २, ९, १६; माश्रौ १, १, २, २७; वाश्रौ १, २, ३, २७.
 और्ण- पा ४, ३, १५८;
 -णानाम् बौध १, ५, ३४;
 -णानि बौध १, ६, १०.
 और्ण-कार्पास- -सयोः शंघ १८२.
 और्णक- पा ४, ३, १५८.
 ऊर्ण-नाभि-कुल- -लाय कौसू २१, १३.
 ऋऊर्ण-अद्^० -दम् कौसू २, १७^०; ३, ७; १३७, ३९.
 ऋऊर्ण-अद्स^० -दसम्^० काश्रौ २, ७, १९; ८, १०; शुभ्र १, ९९; १०६; -दाः बौश्रौ ६, ५ : ७; १६, २५ : ९; आमिगृ ३, ८, २ : ३२?^१; बौपि १, १५ : ४०.

ऊर्णा-पिण्ड^० - ण्डः, -ण्डम् याशि २, ९१; -ण्डेन शैशि ७६.
 ऊर्णापिण्ड-वत् आशि ५, ३.
 ऋऊर्णा-मृदु- -दु आपश्रौ १, ७, १३; ४, ५, ५; बौश्रौ २, ९ : ७; भाश्रौ १, ७, ८; ४, ८, २; वैश्रौ ५, ६ : ३; हिश्रौ २, ७, २०; ६, २, ९.
 ऋऊर्णा-अद्स^० -दसम्^० आपश्रौ २, ९, २; बौश्रौ १, १३ : १८; ६, ३० : ६; २१, ४ : २८; भाश्रौ २, ८, १२; १३; वैश्रौ ५, ६ : २; हिश्रौ १, ८, ४; वैगृ १, १० : ९.
 २ऊर्णा-यु^० - पा ५, २, १२३;
 -ऋयुम् आपश्रौ १६, २७, १७; बौश्रौ १०, ३४ : १३; वैश्रौ १८, १९ : २३; हिश्रौ ११, ७, ५९.
 ऋ२ऊर्णा-वत् -वन्तम् आपश्रौ ७, ६, ७; ८, १, ७; १७, १५, ४; माश्रौ १, ७, ३, ४२; ५, २, ८, ५; वाश्रौ १, ६, २, ४; वैश्रौ १०, ६ : २; १९, ६ : ८८; हिश्रौ ४, २, १७; १२, ५, ९; -वान् या ५, २१.
 ऊर्णा-विक्रय- -यः बौध १, १, २०.
 १ऊर्णा-सूत्र^० -त्रम् वाश्रौ ३, २, ७, ५१; कौगृ २, १, १५; बौपि ३, १, २०; -त्रेण वाश्रौ ३, २, ७, ५९; बौपि ३, ३, २; -त्रैः शाश्रौ ४, १५, २२; कौगृ ५, ६, ५.
 २ऊर्णा-सु(त्र>)श्री^० -श्री शांगृ २, १, १७.

ऊर्णा-स्तुक, का- -कम् माश्रौ १, १, २; ११; ७, ३, ३५; -कया वौश्रौ ६, १५ : १२; २५, ८ : १५; -कयोः माश्रौ २, १, ४, १३; -कान् हिगृ २, १२, ८; -कानिः वैश्रौ ८, ११ : २; -काम् आश्रौ २, ७, ६; आपश्रौ १, १०, १; ७, ६, १; ८, १, ७; १०, २६, ११; १४; बौश्रौ ४, १ : २; ३ : १४; भाश्रौ ७, ५, २; ८, २०, ५; १०, १७, १६; वाश्रौ १, ६, १, ३६; वैश्रौ १२, १९ : ५; ७; हिश्रौ २, ७, ४; ५, १, ६; ७, २, ७५; ७८; ४, ५३; आमिगृ ३, १, ३ : १६; जैगृ २, २ : १४; वैध २, ४, २; -के बौश्रौ ६, १० : २; १४ : ३; आगृ १, ७, १६.
 उर्णास्तुक-प्रभृति- -ति माश्रौ १, ७, ६, ५१.
 ऊर्ण्य- पा ५, १, ३९.
 १ऊर्त्या^० अप्राय ६, ७.
 ऊर्दी^० - (>ऊर्दी- पा.) पाग ४, १, ४१.
 ऊर्दीर^० - पाउ ५, ४०; -ऋरम् निघ ३, २९; या ३, २०.
 ऊर्ध्व, ध्वी^० - पाउभो २, ३, १२५; पावाग ४, २, ११६; -ध्वः आश्रौ ३, १, ९; १२, २९x; शाश्रौ; हिगृ १, २७, ७^१; ऋया ८, १५७; १८; १४, ११; -ध्वम् आश्रौ १, ४, ८x; बौश्रौ १४, २५ : २७^१; बौगृ ३, १, २८^१; या ८, १५७;

a) ऊर्णा^० इति पाठः ? यनि. शोघः । b) = ऋषि-विशेष- । व्यु. ? । c) या २, २६; ५, २१; २३; ६, ३५ पा १, २, ३; ७, २, ६; ३, ९०; ९१ पावा ६, १, १५८ परामृष्टः द्र. । d) वैप १ द्र. । e) पाभे. वैप १, ९८८. द्र. । f) ऊर्णा अदाः इति पाठः ? यनि. शोघः (तु. ऋ १०, १८, १०) । g) विप. । वस. । h) अर्थः व्यु. च ? । i) कुर्द- इति पाठा. । j) पाभे. वै १ परि. उग्रः शौ ३, १२, ६ टि. द्र. ६ k) ऊर्ध्व इति पाठः ? यनि. शोघः । l) सप्र. ऊर्ध्वम् औषध्यनुवाकान् (?) <> औषध्यनुयाकम् इति पाभे. । -

१२, १; -ऊर्ध्वया शांश्रौ ४, ११,
४; बौश्रौ १०, ३६ : ६; -ध्वंस्य
पावा ५, ३, ३१; -ऊर्ध्वा आश्रौ
४, ६, ३; १२, २; शांश्रौ; या
६, १२; -ध्वान् शांश्रौ १४,
३८, २; ५; काश्रौ; -ध्वान् शांश्रौ
१२, २, २६; आपश्रौ; -ध्वानाम्
निसू ३, १: १५; -ध्वानि काश्रौ
९, २, १४; -ध्वाम् आश्रौ १०, ८,
१२; शांश्रौ २, ९, ११×४; काश्रौ;
या ६, ६१; १३, ६; -ध्वान्याः
कौसू ४९, ८; ऋश्र ९, ३; १५,
४; ५; -ऊर्ध्वायाम् आश्रौ १,
११, ७; शांश्रौ; -ऊर्ध्वान्यै बौश्रौ
१८, ५२ : ३६; बौगृ २, ८, ३६;
भागृ ३, १३ : १९; अप ४६, ६,
४; अश्र १२, ३; -ध्वे आपश्रौ २,
९, ९; बौश्रौ; -ध्वेन बौश्रौ ८, १:
२; ९ : १; ११, ६ : २; -ध्वेभ्यः
अप ६८, १, ४०; -ध्वे आपश्रौ
२, १९, ८; हिश्र २, ५, ८०.
बौध्व- -ध्वः हिश्रौ ५, ४,
३१.
ऊर्ध्व-कपाल, ला^१ - लः वागृ ५,
२८; -ला आपश्रौ ६, ३, ७;
वाश्रौ १, ५, २, १०; -लाम्
भाश्रौ ६, ८, १४; हिश्रौ ३, ७,
१५; -लायाम् काश्रौ ४, १४, १.
ऊर्ध्व-काल- > और्ध्वकालि(क>)
का-, °की- पावा ४, २, ११६.
ऊर्ध्व-कृशान^१ - नः ऋश्र २, १०,
१४४.
ऊर्ध्व-क्षेप, पा^१ - न्पा माशि ४, १२;
-पात् याशि १, ६३.
ऊर्ध्व-ख^१ - खम् या ९, २०.
ऊर्ध्व-गति- -तिः या २, ११.

ऊर्ध्व-(ग>)गा- -गा कप्र १, ७, १.
ऊर्ध्व-गामिन्- -मि भाशि १४.
ऊर्ध्वगामिनी- -नी अप ५८^२,
४, ५.
ऊर्ध्व-प्रावन्^१ - -वा ऋश्र २, १०,
१७५.
ऊर्ध्व-ग्री(वा>)व^१ - -वम् आपश्रौ
१, १९, ३; १०, २७, १०; १९,
२७, ११; बौश्रौ १, ६ : ११;
७ : २; भाश्रौ १, २१, १; वैश्रौ
४, ६ : ९; १२, १९ : २३; हिश्रौ
१, ५, ४२; -वेण बौश्रौ २१,
१२ : २१; हिश्रौ ७, ३, ५.
ऊर्ध्व-चित्- -चितः आपश्रौ १,
२३, ५; बौश्रौ १०, २० : १०;
१११; २६ : १३; १४१; १९,
२ : ४; ५१; आमिगृ ३, ८, २ :
२१^२; बौपि १, १५ : ३०.
ऊर्ध्व-जात, ता- -तात्, -तायाम्
वैश्र ३, ११, २.
ऊर्ध्व-जानु^१ - पा ५, ४, १३०; -नुः
आश्रौ १, ३, २२; शांश्रौ १, ५,
८; वैश्रौ १, १२ : ६; अप ४१,
२, ११.
ऊर्ध्व-जु^१ - पा ५, ४, १३०; -ज्वः
आपश्रौ ३, ८, ८; भाश्रौ ३, ७,
७; -जुः आश्रौ २, १६, १४;
शांश्रौ; -जुम् आपश्रौ २, ५, २;
१६, ५; भाश्रौ २, ५, ४; वैश्रौ
५, ३ : ३; ६, ४ : १०; हिश्रौ
२१, २, १५.
ऊर्ध्व-तस्(ः) अप २६, १, ४; ५.
ऊर्ध्व-ता- -तायाम् हिश्रौ ६, १, ४.
ऊर्ध्व-तान^१ - -नः या ४, २१.
ऊर्ध्व-द्(शा>)श^१ - -शेन द्राश्रौ ५,
२, ५; लाश्रौ २, ६, २; निसू १,

११ : १२.
ऊर्ध्व-नीसा(त-अ)वि^१ - -विः अप
२४, ४, १.
ऊर्ध्व-देह-> और्ध्वदेहिक- पावा
४, ३, ६०; -कम् विध ५८, ३. ;
ऊर्ध्व-नभस्^१ - -भसम् आपश्रौ ७,
२१, ३; बौश्रौ ४, ७ : १८;
भाश्रौ ७, १६, १०; माश्रौ १,
८, ४, ३८; वाश्रौ १, ६, ६, ११;
वैश्रौ १०, १६ : १४; हिश्रौ ४,
४, ४१; कौसू ४५, १२.
ऊर्ध्व-नाभन्^१ - -भा ऋश्र २, १०,
१०९.
ऊर्ध्व-निर्मोचन^१ - -नम् बौश्रौ २०,
१० : १५.
ऊर्ध्व-निष्का(न्त>)न्ता- -न्ता
सु ३, २.
ऊर्ध्व-दम-> और्ध्वदमिक- पावा
४, ३, ६०.
ऊर्ध्व-पवित्र^१ - -त्रः बौगृ २, ५, २४.
ऊर्ध्व-पत्र^१ - -त्रस्य आपश्रौ १२,
२९, ६; -त्राणि बौश्रौ २५, १३ :
१४; माश्रौ २, ३, १, १३; वैश्रौ
११, २ : ११; ३ : ६; हिश्रौ
१३, ८, १५; -त्रेषु बौश्रौ
२५, २४ : ३; -त्रैः वैश्रौ ११,
३ : ८.
ऊर्ध्व-पाश- -शम् बौश्रौ २०, १० :
१६.
ऊर्ध्व-पूर पा ३, ४, ४४.
ऊर्ध्व-प्रमाण^१ - -णम् काश्रौ २१, ४,
१२; वैश्रौ १८, १६ : ७३; आपश्रु
९, १५; ११, १६; बौश्रु ७ : ३;
१९ : ९, हिश्रु ३, ३४; ४, २०;
-णेन आपश्रौ १६, ४, ७; हिश्रौ
११, १, ४२.

a) वैप १ द. । b) ऋषि-विशेष- । c) विप. । बस. । d) विप. । कस. > बस. । e) बस.

समासान्तः बलिष् प्र. उत्सं. (पा ५, ४, १२४) । f) मलो. कस. । g) = उत्सेष- । कस. ।

ऊर्ध्वप्रमाणा (रा-अ)भ्यास-
-सम् बौशु ५ : ९.
ऊर्ध्व-फल^a- -लाभ्याम् कौस्
२८, ३.
ऊर्ध्व-बन्धन^b- -नः या १२, ३८.
ऊर्ध्व-बर्हिस्^c- -हिर्भ्यः वाश्रौ १,
२, १, १६; हिश्रौ १, २, ३१.
ऊर्ध्व-बाहु^d- -हु काश्रौ २१, ४, १३;
-हुः शाश्रौ १७, १०, ८; काश्रौ
१६, ३, ७; आपश्रौ ७, २, १३;
१५; १६, १७, ८; वैश्रौ १८,
१४ : २५; हिश्रौ ११, ६, १७;
कौस् ८५, १०; कप्र २, १, १२;
आपश्रु ८, १२; बौशु ८ : ११;
हिश्रु ३, १७; -हुना माश्रौ ६,
१, ५, ३०; -हुम् आपश्रौ १८,
१५, १०; वाश्रौ ३, ३, ४८.
ऊर्ध्वबाहु-प्रपदोच्छ्रित^e- -तेन
काश्रौ १६, ७, ३२.
ऊर्ध्व-बाहुक^f- -काः वैध १, ८, १.
ऊर्ध्व-बुध्न^g- -ध्नः शुश्रु ४, १९७;
या १२, ३८७.
ऊर्ध्व-बृहती^h- -ती ऋश्र १, ७, ६;
शुश्र १, २८८; २, ८४; १४९; ५,
४७; ऋश्र १६, ४७; -स्यः ऋश्र
२, ९, ११०.
ऊर्ध्व-बोधनⁱ- -नः या १२, ३८.
ऊर्ध्व-भरस्^j- -रसम् द्राश्रौ २,
४, १; लाश्रौ १, ८, १.
ऊर्ध्व-भाग- -गे वैश्र १, १४ : ४.
ऊर्ध्व-भाव- -वः वैश्र ५, १ : २८.
ऊर्ध्व-मार्ग-गति^k- -तिम् या १४, १.
ऊर्ध्व-मुख^l>खी^m- -खी अप
७०^३, ११, ३०.
ऊर्ध्व-मुहूर्त->ऊर्ध्वमौहूर्तिक- -के

पा ३, ३, ९; १६४.
ऊर्ध्व-मूलⁿ- -लानाम् वाधृश्रौ ३,
७६ : ४.
ऊर्ध्व-मेखला- -ला वैश्रौ १, २ : ६.
ऊर्ध्व-रेत^o- -तम् आमिगृ २, ६, ८ :
३६.
ऊर्ध्व-रेतस्^p- -तसाम् आपध २,
२३, ६; हिध २, ५, १६०; -नसे
गोध २६, १२१; -ताः आमिगृ
२, ७, १० : १०; वाध ९, ५;
वैध २, ५, ३; गौध ३, १२;
-तोभ्यः आमिगृ १, २, २ : ३०;
बौगृ ३, ९, ६; भागृ ३, ११ : ५;
हिगृ २, २०, १.
ऊर्ध्व-लोमन्^q- -म वैश्रौ १३, ८ :
९; -म्ना वैगृ ५, ५ : ३.
ऊर्ध्व-वपु- -सा वैध ३, १२, ११.
ऊर्ध्व-वयस्^r- -याः आपश्रौ १७,
६, १; हिश्रौ १२, २, १४.
ऊर्ध्व-वाच्^s- -वाचः आपश्रौ १०,
१, १; माश्रौ १०, १, १.
ऊर्ध्व-वाल, ला^t- -लम् गौध २३,
१८; -लाम् पागृ ३, १२, ७.
ऊर्ध्व-वास्य^u- -स्यम् आपश्रौ १०,
९, १२; माश्रौ १०, ६, ९; -स्येन
हिश्रौ ७, १, ४८.
ऊर्ध्व-विस्तार- -रम् वैश्रौ ११, ८ :
११.
ऊर्ध्व-वृत्^v- -तम् कप्र १, १, २.
ऊर्ध्व-वेदि- -दिः वैध १, ६, ५;
-दिम् वैगृ १, ८ : १२; -द्याम्
वैगृ ४, १० : ८.
ऊर्ध्ववेदि-विस्तारो (र-उ) श्-
(त>)ता- -ता वैध १, ६, ५.
ऊर्ध्व-शकल^w- -लः हिश्रौ ४, १,

१४; -लम् आपश्रौ ७, १, १७.
ऊर्ध्व-शकल-शा(खा>)खी^x- -खम्
काश्रौ ६, १, ८.
ऊर्ध्व-शकल^y- -लकः भाश्रौ ७, १,
९; -लकम् माश्रौ १, ८, १, ४;
वाश्रौ १, ६, १, ७.
ऊर्ध्व-शा(खा>)खी^z- -खः वैश्रौ
१०, १ : १३; हिश्रौ ४, १, १४.
ऊर्ध्व-शु(ष>)पी- -पी कौस् ४८,
३८.
ऊर्ध्व-शुष्क- -ष्कम् विध ६१, ८;
-ष्के अप २२, ३, ४.
ऊर्ध्व-शोष- पा ३, ४, ४४.
ऊर्ध्व-श्रित्- -श्रितः^{aa} आपश्रौ १६,
३३, १; वैश्रौ १८, १६ : ६५;
हिश्रौ ११, ८, ११.
ऊर्ध्व-वेदि(त>)ना- -ते हिश्रौ
११, ५, ३२.
ऊर्ध्व-वद्^{ab}- -वत् आपश्रौ १०,
१०, ४; माश्रौ १०, ६, १८; वैश्रौ
१२, ९ : ११.
ऊर्ध्व-सङ्गन्^{ac}- -ङ्गा ऋश्र २, ९,
१०८.
ऊर्ध्व-सङ्गन्^{ad}- -नम् द्राश्रौ
७, ४, ८; लाश्रौ ३, ४, ७; निस्
८, १ : ११; १४ : १६.
ऊर्ध्व-सप्त-प्रभृत्य(नि-अ)ङ्गिरस्-
-रसः साश्र १, ५७९.
ऊर्ध्व-समिध्- -मिधौ वैगृ १, २१;
३; ४, १० : ८.
ऊर्ध्व-सानु^{ae}- -नुम् आपश्रौ १५,
२, १४; वैश्रौ १५, ११ : ५;
हिश्रौ ८, ३, ३; -नून् आपश्रौ
१२, २, १५; वैश्रौ १३, ३ : १३;
हिश्रौ ७, ६, ३६; -नूनि आपश्रौ

a) विप. । बस. । b) वैप १६. । c) विप. । कस. । d) = वानप्रस्थ-विशेष- । e) = छन्दो-विशेष- । बस. । f) कस.

> वृत्. । g) विप. । बस. उप. = रेतस्- । h) नाप. । उप. < √ वस् [आच्छादने] । i) विप. (तन्तु-त्रय-) । j) विप. । बस. > दस. । k) पाभे. वैप १, १११६ द्र. । l) सपा. षसत् < > ष्ः इति पाभे. । m) = ऋषि-विशेष- । n) = साम-विशेष- ।

१२, १, ४; वैश्रौ १५, ३ : २;
 हिश्रौ ८, १, ३३.
 †ऊर्ध्व-सू०-सूः^० वाश्रौ १, २,
 ४, ४६; हिश्रौ १, ५, ४८; ७, १,
 ५६.
 ऊर्ध्व-स्तोम- -मः आपश्रौ २२, ५,
 १४, २३, ९, १४; हिश्रौ १७,
 २, ४२; वैताश्रौ ३१, १४.
 ऊर्ध्व-स्थ- -स्थान् अश्र ३, २६.
 ऊर्ध्व-हस्त०- -स्तः बौध २, ७, ११.
 ऊर्ध्वा(र्ध्व-अ)ग्र, प्रा०- -ग्रम् आश्रौ
 ७, २, ४; बौश्रौ १, २ : २९; ४,
 १ : १९; ६, २ : १; २, ५ : २२;
 ९, ७ : २१; २०, ३ : १५; १२ :
 २६; वैश्रौ २, ६ : १२; १०, १ :
 १६; १२, ९ : ११; आश्रिगृ २,
 २, ५ : १०^०; बौगृ २, ४, १०;
 वागृ ४, ९; वैगृ १, २१ : ९; ३,
 २३ : ८; अप २३, २, २; वैध
 २, २, ५; -माः द्रागृ २, ३, २४;
 -ग्राणि भागृ १, २८ : १३; १०,
 ३ : १२; -ग्राम् हिश्रौ ४, १, २१;
 ७, १, ३५; हिगृ १, ९, १३; २,
 ६, ७^०; -मे कौगृ १, ४, ५; शागृ
 १, ८, २१; वैगृ १, ११ : ३; -मैः
 जैश्रौ ६ : १४; जैश्रौका ७८;
 द्राश्रौ ५, २, ५; लाश्रौ २, ६, २;
 निस् १, ११ : ११.
 ऊर्ध्वा(र्ध्व-अ)ङ्गुलि०- लिम् आगृ
 १, २१, ७; कौगृ २, २, १४; शांगृ
 २, ३, ५.
 ऊर्ध्वा(र्ध्व-अ)जन०- -नम् बौश्रौ ९,
 ११ : १३; वैश्रौ १३, १३ : १२.

ऊर्ध्वा(र्ध्व-अ)यन०- -नानि निस्
 १०, ९ : २४.
 ऊर्ध्वा(र्ध्व-अ)र्थ०- -र्थः निस् २, ३ :
 . १८.
 ऊर्ध्वा(र्ध्व-अ)वाची- -चीभ्याम् द्रागृ
 ४, २, २२^०.
 ऊर्ध्वे(र्ध्व-इ)ड०- -डम् निस् ८,
 १० : ३५; -डानि निस् २,
 ११ : ४.
 ऊर्ध्वो(र्ध्व-उ)प(ल>)ला०- -ला
 वैश्रौ ११, ९ : ५.
 †ऊर्ध्मि०- पाउ ४, ४४; पाग ८, २,
 ९^०; -मैयः आपश्रौ १७, १८,
 १; बौश्रौ २, ११ : १३; १३, ३६ :
 १०; वैश्रौ १, १७ : १२; या
 १०, २४; -मिः आश्रौ ८,
 ६, ६; ९, २; शाश्रौ ११, १३,
 ११; आपश्रौ ५, ९, १०; १७, ४;
 १४, १८, १; १७, १७, १२; १८,
 १३, ४; बौश्रौ ६, ९ : ९×४;
 भाश्रौ; या ५, २३; ७, १७;
 -मिभिः आपश्रौ १७, १८, १;
 कागृ ४५, १०; या २, २४;
 -†मिम् आश्रौ ४, ७, ४; ९, ११,
 १५; आपश्रौ १७, १८, १;
 माश्रौ ६, २, ६, २०; वाश्रौ;
 या ४, ७; १०, १६; -मी काश्रौ
 १५, ४, २६; -मौ बौश्रौ १८,
 १० : ४; १२; -म्या आपश्रौ
 १९, १३, ७; हिश्रौ २३, २, ४०;
 वैगृ १, ४ : १८; ४, ६ : २;
 अप ४८, ७४; निघ १, ७.
 औ(र्ध्व>)म्या- -म्याः बौश्रौ

१२, ८ : १०.
 †ऊर्ध्मिन्- -मिणा काश्रौ ४, २, ३२^०;
 बौश्रौ १५, ६ : १०; माश्रौ १,
 १, ३, ३२^०; वाश्रौ १, २, २,
 २८^०; शांगृ १, २८; ८^०.
 ऊर्ध्मिणी- -णीः^० बौश्रौ १,
 ३ : २९; कौगृ १, २१, ७.
 ऊर्ध्मि-कारम् बौश्रौ ८, ९ : २५.
 ऊर्ध्मि-मत्- पा ८, २, ९; -मन्तम्
 आश्रिगृ १, २, २ : ४५; २, ४,
 ३ : १६; बौगृ ३, ९, १२; हिगृ
 २, २०, ११.
 †ऊर्ध्म्य, म्या०- -म्याय^० कागृ ४,
 २०; गौध २६, १२; -म्यायाम्
 आपश्रौ २४, १२, ६^०.
 †ऊर्ध्व, र्वा०- -०र्व आपश्रौ १६, १२,
 ११^०; हिश्रौ ११, ५, ७^०; -र्वः
 अप २२, ५, १; या ६, ७;
 -र्वम् शाश्रौ १४, ११, ९; -र्वैः
 शाश्रौ ७, ५, २३; जैश्रौ १५ :
 ४; जैश्रौका १४४; वैताश्रौ
 २०, ८.
 २ऊर्ध्व- > †२ऊर्ध्व- -०र्व आश्रौ
 १२, १०, ६^०; आपश्रौ २४, ५,
 १२; १३; बौश्रौप्र ३ : १६;
 ४ : ४; वैध ४, २, २^०; साअ
 १, १८; -र्वः आपश्रौ १, १४,
 १०; भाश्रौ १, १५, ११; माश्रौ
 १, २, १, ३४; वाश्रौ १, २, २,
 ३९; वैश्रौ ३, ९ : ५; -र्वम्
 सु २७, ५; -र्वेभ्यः द्राश्रौ ७, २,
 १२; लाश्रौ ३, २, १२; -र्वैः द्राश्रौ
 ५, १, १८; लाश्रौ २, ५, १४.

a) वि. १. उ.स. उप. < √सु [प्ररणे] । b) पामे. पृ ७५७ j द्र. । c) विप. । बस. ।
 d) सप्र. 'ग्रम् <> 'ग्राम् इति पामे. । e) 'चि' इति पाठः ? यनि. शोधः । f) वैप १ द्र. । g) उर्ध्मि-
 इति पाका., [पशे] भाण्डा. प्रमृ. च शोषार्हाः (तु. BPG.) । h) पामे. वैप १ परे. 'मै ४, १, ३ टि. द्र. ।
 i) पामे. वैप १ परि. 'मै २, ९, ८ टि. द्र. । j) पामे. वैप २, ३ खं. ऊर्ध्म्यायाम् मास १, ५, १, १७ टि. द्र. ।
 k) = ऋषि-विशेष- । व्यु. ? । l) पामे. पृ ७४४ h द्र. ।

२+बीर्ष-भृगु-वत्^a शांश्री १४,
५१, २१; बीश्री १३, ३९ :
१३; माश्री ५, १, १, ३८.

ऊर्ष-वत्^b आपश्री २४, ५, १२;
१३; बीश्रीप्र ३: १७; ४: ५;
वैध ४, २, २^c.

ऊर्षाव्यधि^d वाश्री ३, १, २, १९.

ऊल- उल- द्र.

✓ऊर्ष^e पाधा. भ्वा. पर. रुजायाम्.

ऊर्ष^f- पाउभो २, ३, १६७; पाग ४,
२, ८०^g; -ष: वैताश्री ११, ५;
-षम् कौसू ८३, ३; -षा:
आपश्री ५, १, ७^h; बीश्री २, ६:
१८, १२: १; २४, १४: १ⁱ;
-षान् काश्री १७, १, ४; आपश्री
५, १, ७^h; ९, ६; १६, १४, २;
४; १९, ११, ७; ९; बीश्री २,
१६: ९; २१; २७; १०, १९: ३;
२०: ६; १९, २: १०; २३×४;
भाश्री; -वै: विध २३, १९.

ऊर्ष-देवता-> ष्वत्य- न्यम्
शुभ्र २, १०७.

ऊर्ष-पुट^j- -दान् काश्री १४, ५,
१२; बीश्री ११, १: ६; वाश्री ३,
१, १, ३४; -टै: शांश्री १६, १७,
११; आपश्री १८, ५, १६; वाश्री
३, १, २, १७; हिश्री १३, २, १०;
ऊर्ष-र- पा ४, २, ८०^g; ५, २,
१०७; -रे काश्री २१, ३, १६; अप
२०, १, ३; ६२, ३, ४; बीध १, २,
४९; विध २९, ८; ६०, ६; -रै:
वैध ३, ४, ३.

ऊर्षर-संभ(व>)वा- वा:
अप २६, ४, ४.

ऊर्ष-वत् काश्री १७, १, ६.

ऊर्ष-लिक(ता>)त- तम्
माश्री ६, १, ५, ४.

ऊर्षसिकत-वर्जम् मागृ २,
१, १५.

ऊर्षा(ष-आ)खूत्कर- -रान् काश्री
४, ८, १४.

१ऊर्षन्^k- पाउभो २, १, २८५;
पाग ५, २, ९७^h; २, १००;
-ष्मण: आपश्री १, ९, १०; ७,
२३, ९; बीश्री ३, १०: २४; भाश्री
१, ९, ३; ७, १८, ५; २०, २;
माश्री; -ष्मणा काश्री १५, ३,
२९; वैताश्री ५, १६; -ष्मणि
आपश्री १, ९, ११; भाश्री १, ९,
४; हिश्री २, ७, ४०; भागृ २,
१३: ७; -ष्मा शांश्री ६, १,
६; बीश्री ३, १०: २४; -ष्माणम्
आश्री ३, ३, १^l; शांश्री ५,
१७, ४^h; आपश्री ७, २३, ९;
१५, १०, २; ५; बीश्री.

ऊर्ष(न>)ण- पा ५, २, १००.

ऊर्ष-प^m- -पा: माश्री १, १, २,
३१.

ऊर्ष-भक्षम् कौसू ५७, २७;
८९, २.

✓ऊर्षमाय पा ३, १, १६.

२ऊर्षन्ⁿ- -ष्मण: ऋप्रा ६, ६; १०,
२२; २३; ११, ४१; १३, १२;
१४, ३३; तैप्रा; -ष्मणा ऋप्रा
१, ५२; १३, १६; नाशि २, ६,
४; -ष्माणम् अप ४७, २, ९;
ऋप्रा १, ३९; १२, २; १४, २०;
शौच १, ३१; शैशि ४६; पाशि

२२; माशि ६, ९; -ष्मणि ऋप्रा;
४, ३२; ३४; ३६; शुप्रा ४, १७;
शौच १, १०१; -ष्मणि: ऋप्रा
१२, ६; ७; १३; याशि १, ७२;
नाशि १, ७, १६; २, ४, १०;
-ष्मभ्य: शुप्रा ४, १६४; -ष्मसु
ऋप्रा ६, २०; १४, २९; शौच १;
४६; -ष्मा अप ४७, १, ९;
ऋप्रा; -ष्माण: अप ४७, १, ३;
३, ६; ऋप्रा १, १०; १२, १५;
उसू; -ष्माणम् ऋप्रा ४, ३१,
३२; १४, ३५; ५२; तैप्रा
९, २.

ऊर्षा^k- -ष्मा याशि २,
४८^h, ५०; नाशि १, ८, ९;
-ष्माम् याशि १, ७५.

ऊर्ष-घोष- -वौ ऋप्रा १३, १८.

ऊर्ष-जात- -तौ शैशि १२४.

ऊर्ष-ता- -ता शैशि ३४३.

ऊर्ष-त्व- -स्वम् आशि ८,
१९.

ऊर्ष-पर, रा^l- -र: तैप्रा ९, १;
५; १४, १२; १५, ४; २०, ९;
-रा ऋप्रा ६, ४८; -रे ऋत ४,
२, १; -रै: ऋप्रा ५, १,
ऊर्ष-प्रकृति^m- -ते: ऋप्रा ६,
३०.

ऊर्ष-प्रदायि(न>)नी- नी
याशि १, ७३.

ऊर्ष-ल- पा ५, २, ९७^h.

ऊर्ष-लोष- -प: ऋप्रा ४, २१.

ऊर्ष-वत् > ष्वद्-वृत्त- -त्तम्
ऋप्रा १०, २०.

ऊर्ष-वत्- -वान् ऋप्रा १२, ९.

a) पाभे. पृ ७४४ i द्र. । b) पाभे. पृ ७४४ j द्र. । c) अर्थ: व्यु. च ? । d) = ✓ऊर्ष [दाहे]

इत्यपि द्र. । e) वैष १ द्र. । f) लष-, लष- इति पाका. । g) = देश-विशेष- ? । h) तु. पागम. ।

h) विप. । उस. उप. < ✓पा [पाने] । j) = वर्ण-विशेष- । k) स्त्री. ङाप् प्र. (पा ४, १, १३) ।

l) विप. । बस. ।

ऊष्म-विसर्जनीय-प्रथम-
द्वितीय- -याः तैप्रा १, १२.
ऊष्म-वृत्ति- -त्तेः उसू ५, ५.
ऊष्म-संयुक्त- -क्तान् नाशि २,
५, १०.
ऊष्म-संयोग- -ने कौशि ७७.
ऊष्म-संज्ञा > ङ- -ज्ञे शैशि
१११.
ऊष्म-संज्ञा-> ङित- -ताः
शैशि २३.
ऊष्म-संज्ञेह- -हे माशि १३, ८.
ऊष्म-संधि- -धिः ऋप्रा ४, ३५;
-धिम् १५, १२; -धिषु ऋप्रा
११, ४६.
ऊष्म-संपन्न- -ज्ञान् माशि
१२, ९.
ऊष्म-स्थ- -स्थौ माशि ९, ८.
ऊष्म-स्वरवर्गी- -कार- -रः
आशि ५, ३.
ऊष्मा(ष्म-अ)न्त- -न्तम् ऋप्रा
१३, २२; उसू ७, १०; शुप्रा ४,
२७; नाशि २, ५, ७; -न्तानाम्
ऋप्रा ४, २०; -न्तानि अप्रा २,
२, १; ७; १४; १५; १७-२०.
ऊष्मान्ता(न्त-आ)वाच-
-धानि अप्रा २, २, १०.
ऊष्मा(म-अ)न्तस्थ(स्था-ऋ-रौ)-
सौंष्म-चकारवर्गी- -र्गाः ऋप्रा
१२, १.
ऊष्मा(ष्म अ, न्तस्था- -स्थाः
शुप्रा ४, १०६; -स्थाभ्यः शुप्रा
४, १०७.

ऊष्मान्तस्था-प्रत्यय- -यम्
ऋप्रा १४, ४०.
ऊष्मो(ष्म-उ)द्य- -यम् ऋप्रा
६, ५४.
ऊष्माण- > ण-संयुत- -तः
नाशि २, ६, ३.
ऊष्मा- -पा आपथौ २१, १२, ३;
हिथ्रौ १६, ४, ३५.
✓ऊह(प्रापणे)°, ऊहते बौथ्रौ १८,
२९ : ९; ऊहति आथ्रौ ५, ४,
८; बौथ्रौ १, १९ : १६; वैथ्रौ ७,
५ : ६; ७; औहत् वाध्रुथ्रौ ४, १-५;
९४ : २२; ऊहेत् बौथ्रौ १८, ४५ :
३२; ऊहेत् आथ्रौ ५, ४, ८;
शाथ्रौ १, १७, १९; माथ्रौ
४, १, ८; ५, २, ९, ३; १३, १;
जैथ्रौका १६; द्राथ्रौ ३, २, १५;
५, ३, २९; ६, १, १०; १०, १,
११; लाथ्रौ १, १०, ११; २, ७,
२६; ९, ६; ३, ९, १२; काय ४७,
११; ६६, २; बौपि २, १२,
४; भाय ३, १७ : ११; द्राय
३, ५ : २२; ४, १, २३;
विध २१, २; ऊहेयुः लाथ्रौ ८,
९, १३.
ऊह्यते या १२, ३.
ऊह- -हः शाथ्रौ १४, ५१, ५;
काथ्रौ ४, ३, २०; आपथ्रौ १४,
५, ५; २४, ३, ४९; ५०;
काथ्रौसं ४ : १५; भाथ्रौ ६,
१५, ८; वैथ्रौ १७, १० : १२;
हिथ्रौ ३, ८, ४९; ५०; ९, ८, ३०;

निसू २, १ : ५; ८; २७; गौपि
१, १, ३२; या १३, १३; मीसू
१, २, ५२; -हम् शाथ्रौ ६, १,
३; -हस्य निसू २, १ : १९;
-हाः३ निसू २, १ : १; -हेन
शाथ्रौ ६, ९, १२; माथ्रौ १, ७,
४, ३१; माय १, २१, १४.
ऊहा- पाग ३, ३,
१०४.
औह- -हः लुसू ३, ८ : २.
ऊह-ब्रह्मन्- -ह्याणः या १३,
१३.
ऊह-वत् मीसू १०, ५, ८८.
ऊह-वत्- -वद्भिः गौध २८,
४९.
ऊह-स्थान- -नानि द्राथ्रौ २,
४, २; लाथ्रौ १, ८, २.
ऊहा(ह-आ)पादिन्- -दीनि
द्राथ्रौ ५, ३, २०; लाथ्रौ २, ७,
१९.
ऊहत्- -हन् आथ्रौ ३, २, ११.
ऊहन- -नात् निसू २, १ : ३; २५.
ऊहन-व्यञ्जना(न-अ)र्थ- -र्थम्
कप ३, १०, ८.
ऊहनीय- -याः कौशि २९.
ऊहन्वा वैय २, ९ : ४; १०; ३, २२;
७.
ऊह गोय २, ५, ४; कप ३, ६, २.
ऊह- -हम् माथ्रौ ५, २, ९, ३.
✓ऊह^१, ऊहे^१ या १२, ३५.
✓ऊह^१ पाधा. भ्वा. आत्म. वितर्क.
?ऊहमानि^१ पाग २, ४, ५९.

a) विप. । वस. । b) द्रस. । c) = २ऊष्मन्- । व्यु. ? । d) = उषा- (= उषस- । तु.
वैप १, ८. च।) । व्यु. ? । e) पा ७, ४, २३ परामृष्टः द्र. । f) तु. पागम. । g) स्वार्थिकः भण् प्र. ।
h) = औह^१ [वैप १ द्र.] । i) वैप १ द्र. । j) पावा १, ३, २९; ३, १, १३१ परामृष्टः द्र. । k) उ^१ इति
[भाण्डा.] पाठः ? (ऊहमान->) औहमानि- इति शेषः (तु. ? BFG.) ।

